

❀ श्रीहरिः ❀

महर्षि-कृष्णद्वैपायन वेदव्यास-रचित

❀ महाभारत ❀

❀ हरिवंश-पूर्वार्ध ❀

अर्थात्

हरिवंशपर्व और विष्णुपर्व

मुरादाबादनिवासि-सनातनधर्मपताका-सम्पादक

ऋ०कु० रामचन्द्रशर्मा कृत

हिन्दी-भाषानुवाद-सहित

—:०:—

THE MAHABHARAT

Harivansh

Part I

of the

HARIVANSH PARV

AND


VISHNU PARV

WITH HINDI TRANSLATION


by Rishikumar

Ramchandr Sharma

1926.



*Published by Pt. Ramchandr Sharma at the
Sanatan Dharm Press Moradabad.*



ॐ श्रीहृदि ॐ



❀ महाभारत-हरिवंशपर्वकी ❀

❀ विषयसूची ❀

❀ हरिवंशमार्हात्म्य ❀

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१	नौ, इक्कीस और इकतीस दिनमें सुननेका विधान	१
२	नौ दिनमें सुननेकी विधि	६
३	पूजाविधि	१२
४	नवाह्नतियोंके नियम	१६
५	हरिवंशको सुननेसे सन्तानप्राप्ति	२६
६	श्रवणविधि	३१
❀ हरिवंशपर्व ❀		
१	आदिसृष्टि	३६
२	दत्तकी उत्पत्ति	५३
३	गरुडोंकी उत्पत्ति	६२
४	पृथुका उपाख्यान	८३
५	पृथ्वीको दुहना	८८
६	पृथ्वी और पृथुका सम्वाद	९६
७	मन्वन्तरोंकी कथा	१०४
८	मन्वन्तरोंका समय	११६

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१३	धेनुकसंहार	८१
१४	मलम्बरासंहार	८५
१५-१८	गोवर्धनलीला	९४
१९	इन्द्रकृत श्रीकृष्ण अभिषेक	१२०
२०	इन्लीसक्रीड़ा	१२६
२१	अरिष्टसंहार	१४१
२२	कंसका घबड़ाना	१४६
२३	अंधकवाक्य	१६१
२४	केशीवध	१६७
२५	अक्रूरका वृन्दावनमें आना	१७६
२६	अक्रूरका आश्चर्यित होना	१८६
२७	धनुर्भंग	१९५
२८	रजकवध	२०५
२९	कुवलायापीडका संहार	२२२
३०	कंसवध	२३६
३१	कंसकी स्त्रियोंका विलाप	२४३
३२	कंसका मृतकसंस्कार	२५१
३३	सान्दीपनिके मृतपुत्रको लाना	२६१
३४-४२	जरासन्ध और श्रीकृष्णका युद्ध और गोमन्त पर्वत पर चढ़ना तथा गोमन्त पर्वतका जलाना	२६७
४३	फरवीरपुरको प्रस्थान	३५०
४४	शृगालवध	३६४
४५	मथुरामें प्रत्यागमन	३७३
४६	यमुनाकर्षण	३७५
४७	रुचिमणीस्वयम्बर	३८४
४८	श्रीकृष्णके आने पर राजाओंका चिन्तित होना	३९०

अध्याय	विषय	पृष्ठ
४६	दन्तवक्रका भाषण	३६८
५०	श्रीकृष्णका राजाओंका आरवासनदेना	४०८
५१	श्रीकृष्णाभिषेक	४२१
५२	भीष्मकका राजाओंसे जमा माँगना	४३२
५३	शाल्वका भाषण	४३६
५४	कालगवनका आगमन	४४८
५५	विदर्भनगरीमें मरुड़जीके आनेका कारण	४४६
५६	द्वारकापुरीमें गमन	४६७
५७	कालगवनका वध	४७२
५८	द्वारकापुरीका निर्माण	४८२
५९	६० रुक्मिणीहरण	४९४
६१	रुक्मीका वध	५१३
६२	बलदेवमाहात्म्य	५२१
६३	नरकवध	५२४
६४	श्रीकृष्णका स्वर्गमें जाना	५४३
६५	सत्यभामाका कोपभवनमें प्रवेश	५५४
६६	सत्यभामा श्रीकृष्णसम्बाद	५६१
६७	सत्यभामा कृष्ण और नारदजीका सम्बाद	५६६
६८	श्रीकृष्णका नारदजीके द्वारा इन्द्रके पास संवाद भेजना	५८६
६९-७०	इन्द्रनारदसंवाद	५८७
७१	करयपकृत रुद्रस्तोत्र	६०४
७२	नारदश्रीकृष्णसम्बाद	६१३
७३	कृष्ण और इन्द्रका युद्ध	६२७
७४	कृष्णकृत शिवस्तोत्र	६४१
७५	श्रीकृष्णका परिजातको लाना	६५१
७६	स्वर्गमें परिजातको स्थापित करना	६६१
७७-८१	पुण्यकविधि	६६६

अध्याय	विषय	पृष्ठ
८२-८५	पट्टपुरवध	६६८
८६-८७	अंधकवध	७३२
८८	भानुपतीहरण	७४६
८९	द्वालिक्यक्रीडा	७५७
९०	निकुम्भवध	७७३
९१-९७	वज्रनाभका वध और प्रद्युम्नका विवाह	७८९
९८-१०२	द्वारकाकी विशेष रचना और नगरके वाक्य	७९१
१०३	केशवकी सन्तानोंका वर्णन	८७२
१०४-१०८	शुम्बरासुरकावध	८७६
१०९	वलदेव आनिहक	८९५
११०	धृयोपाख्यान	९२७
१११-११५	वासुदेव-माहात्म्य	९४६
११६	वाणासुराका वृत्तान्त	९५३
११७	ऊपाका विरह	९७१
११८	चित्रलेखाका द्वारकामें जाना	९८०
११९	वाणासुर और अनिरुद्धका युद्ध	९९४
१२०	अनिरुद्धकृत आर्यास्तोत्र	१०३३
१२१	कृष्णप्रयाण	१०३०
१२२	कृष्ण और ज्वरका युद्ध	१०५०
१२३	ज्वरकृष्णसम्वाद	१०६४
१२४	रुद्र और कृष्णका युद्ध	१०७०
१२५	हरिहरात्मकस्तोत्र	१०७८
१२६	वाणासुरकी वर मिलना	१०८७
१२७	श्रीकृष्णका वरुणसे युद्ध और द्वारकामें आगमन	१११०
१२८	ऊपाका गृहपर्वण	११३०

हरिवंशपूर्वार्धकी विषयसूची समाप्त

॥ श्रीहरिः ॥

हरिवंश-माहात्म्य

भाषानुवाद-सहित

नारायणं जमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं चैव
ततो जयमुदीरयेत् ॥ १ ॥ जयति पराशरमुनुः सत्यवतीहृदय-
नन्दनो व्यासः।यस्यास्यकमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत् पिबति २
अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया । चतुर्भुजीलितं येन तस्मै
श्रीगुरवे नमः ॥ ३ ॥ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराच-
रम् । तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ४ ॥ जनमेजय
उवाच । त्वया मे भगवन् प्रोक्तो भारतभ्रवणं विधिः । श्रवणे
हरिवंशस्य विशेषाद्दद मे विधिम् ॥ ५ ॥ वैशम्पायन उवाच ।

श्रीः ॥ नारायणको नरोत्तमं उच्यते नर भगवान्को और सरस्वती
देवीको प्रणाम करके इतिहास आदि ग्रंथोंकी व्याख्याका आरम्भ
करे ॥ १ ॥ जिनके मुखकमलसे निकले हुए वाणीरूप अमृतका
जगत् पान करता है, उन सत्यवतीके हृदयको आनन्द देने परा-
शरमुनिके पुत्र व्यासजीकी जय रहे ॥२॥ जिन गुरुदेवने अज्ञान-
रूपी अन्यकारसे अन्धे हुए पुरुषके नेत्रोंकी ज्ञानरूपी अञ्जनकी
शलाकासे खोल दिया है उन श्रीगुरुदेवको प्रणाम है ॥३॥ जिससे
चराचर जगत् व्याप्त है उस सम्पूर्ण (जगत् रूपी) मण्डलके आकार
रूप तत् (तत्त्वमसि-वह ब्रह्म तू है) पदका जिन्होंने साक्षात्कार
कराया है, उन श्रीगुरुदेवको प्रणाम है ॥ ४ ॥ जनमेजयने कहा,
कि-हे भगवन् ! आपने मुझसे महाभारत सुननेकी विधि कही
अब हे भगवन् ! आप मुझसे हरिवंशको सुननेकी विधि (विशेष-

ब्रह्मविष्णुमहेशानां हरिवंशं जगुर्जापुः । शब्दब्रह्ममयं विद्धि हरि-
वंशं सनातनम् ॥ ६ ॥ शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्माधि-
गच्छति । हरिवंशपुराणे तु श्रुते वै राजसत्तम ॥ ७ ॥ कायिकं
वाचिकं पापं मनसा समुपाजितम् । तत्सर्वं नाशतां याति तमः
सूर्योदये यथा ॥ ८ ॥ अष्टादशपुराणानां श्रवणाद्यत् फलं
लभेत् । तत् फलं समवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः ॥ ९ ॥
स्त्रियश्च पुरुपाश्चैव वैष्णवं पदमाप्नुयुः । जम्बूद्वीपं समाश्रित्य
श्रोतारो दुर्लभाः क्लृप्तौ ॥ १० ॥ भविष्यन्ति नरा राजन् सत्यं
सत्यं वदाम्यहम् । स्त्रीभिश्च पुत्रकामाभिः श्रोतव्यं वैष्णवं
यशः ॥ ११ ॥ बालघाती च पुरुषो मृतवत्सः प्रजायते । श्रवणं

रूपसे) विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ५ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-
(ऋषि) हरिवंशको ब्रह्मा विष्णु और शिवका शरीर बतलाते
हैं, हरिवंशको सनातन शब्दब्रह्ममय (वेदस्वरूप) जानना
चाहिये ॥ ६ ॥ मनुष्य शब्दब्रह्म (वेदरूप हरिवंश) का पार-
गामी होने पर परब्रह्मको प्राप्त होजाता है, हे राजर्षभ ! हरि-
वंशके सुनने पर मनुष्यका मानसिक वाचिक और कायिक पाप
ऐसे नष्ट होजाता है, जैसे सूर्योदय होने पर सम्पूर्ण अन्धकार
नष्ट होजाता है ॥ ७ ॥ ८ ॥ अठारह पुराणोंको सुननेसे जो
पुण्य होता है, वही पुण्य इस हरिवंशको सुननेसे विष्णुभक्तको
मिलता है ॥ ९ ॥ (इस पर्वको सुननेसे) स्त्रियोंको और पुरुषों
को वैष्णवपद (स्वर्ग) मिलता है, हे राजन् ! कलियुगमें जम्बू-
द्वीपनिवासी मनुष्योंमें श्रोता मिलना कठिन होजायगा जो
स्त्रियें पुत्र चाहती हो उनको जिसमें विष्णुकी कीर्ति है ऐसे (हरि
वंश) को सुनना चाहिये ॥ ११ ॥ हे राजन् ! (जिस) पुरुषने
(पहिले जन्ममें) बालकोंकी हत्या की होती है, वह पुरुष (दूसरे
जन्ममें) मृतवत्स (अर्थात् जिसकी सन्तान उत्पन्न होकर मर

हरिवंशस्य कर्तव्यं च यथाविधि ॥ १२ ॥ गुरुचन्द्राग्निसूर्याणां
संमुखे मेहते च यः । बीजमुत्सृज्यते तेन त्यक्तेता नरो भवेत् १३
योपित्पुष्पफलानां च वाहानां घातिनी तथा । फलानां कर्तन-
करी मातापितृवियोगिनी ॥ १४ ॥ स्त्राविणी परगर्भाणां तत्त-
त्प्रायोपयोपिणी । ईदृग्विधा भविष्यन्ति पञ्चदोषयुताः स्त्रियः १५
अयुपुष्पा मृतवत्साश्च काकवन्ध्या तथैव च । कन्या प्रजात्वं च
तथा स्त्रावयुक्ता स्वपातकैः ॥ १६ ॥ तासां दोषापहारार्थं हरि-
वंशोऽभिगर्जति । मदीयश्रवणात् सद्यो दोषा नश्यन्ति सत्त्व-
रम् ॥ १७ ॥ नरः सुवर्णं सर्पिश्च पददानैः समन्वितम् । दशा-
वृत्तीः शृणोत्येवं बीजसाफल्यमाप्नुयात् ॥ १८ ॥ दशावृत्तीरपु-

जाती है, ऐसा) होकर उत्तन्न होता है, उसको विधिविधानसे
हरिवंशपर्वको सुनना चाहिये ॥ १२ ॥ जो पुरुष गुरु सूर्य और
अग्निके सामने मंत्र करता है अथवा वीर्यत्याग (मैथुन) करता
है वह पुरुष (अगले जन्ममें) त्यक्तेता-निष्फलवीर्यवाला होता
है । १३ ॥ रजोधर्मको (औपधि आदिसे) बन्द कर देने वाली,
बालकोंकी हत्या करने वाली, फलोंको काटने वाली, माता
तथा पितासे (बालकोंको) छुड़ा देनेवाली और दूसरी स्त्रियों
के गर्भको गिरा देनेवाली, ये २ कर्म करनेवाली स्त्रियें अपने
पापोंसे अपुष्पा रजोदर्शनरहित, मृतवत्सा, काकवन्ध्या, कन्या
प्रजावाली और जिनका गर्भ गिर जाता है ऐसी पाँच दोषोंसे
युक्त हों (गी.) ती हैं ॥ १४ ॥ १६ ॥ उनके दोषोंको दूर करनेके
लिये हरिवंश गर्जना कर रहा है, कि- ' मेरा पाठ श्रवण करने
से शीघ्र ही दोष नष्ट होजावेंगे ॥ १७ ॥ जो मनुष्य सुवर्ण घृत
और स्थानका दान देकर इस हरिवंशपर्वको दश बार, सुनता
है उसका वीर्य सफल होजाता है ॥ १८ ॥ अपुष्पा स्त्री दश
बार, मृतवत्सा सात बार और सूत्रद्वगर्भा (जिसका गर्भ

प्यार्थं मृतवरसा तु सप्त वै । पञ्चावृत्तीः स्रवद्रर्भा कारुषन्ध्या
 जयं तथा ॥ १६ ॥ कन्याप्रसूतैकावृत्तिं श्रुत्वा पुत्रमवाप्नुयात् ।
 जीवितावधिकं श्राध्यं सर्वदोषोपशान्तये ॥ २० ॥ भविष्यं जन्म
 संप्राप्य न भवेत्तादृशी पुनः । उत्तमं सार्धपाठं च मध्यमं च
 निरर्थकम् ॥ २१ ॥ विनार्थं शुद्धपाठं चेदुत्तमेन समं भवेत् ।
 नवाहमुत्तमं प्रोक्तमेकविंशाहमध्यमम् ॥ २२ ॥ निकृष्टमेकत्रिंशाहं
 सुखसाध्यं समाचरेत् । बहुभिर्दिवसै राजन् सा न्यानां साधनं
 कलौ ॥ २३ ॥ तेन पारायणं साध्यं प्रोक्तं नारायणात्मना । नवाहो
 गर्जति कलौ चैकविंशाहकस्तथा ॥ २४ ॥ एकत्रिंशाहिको यज्ञो
 गिर जाता हो वह) पाँच बार काकवन्ध्या तीन बार तथा जिसके
 कन्या सन्तान उत्पन्न होती हो वह स्त्री एक बार हरिवंशको
 सुननेसे पुत्रको पाती है, सब दोषोंकी शान्तिके लिये, इसको
 अपने जीवनपर्यन्त सुनते रहना चाहिये ॥ १६ ॥ २० ॥ कि-
 जिससे अगले जन्म फिर ऐसी वन्ध्या होकर उत्पन्न न होना
 पड़े (इस हरिवंशका) अर्थसहित अर्थात् अर्थको समझ कर
 पाठ करना उत्तम है और उत्तम मध्यम तथा निरर्थक (निकृष्ट)
 (भेदसे इसका पाठ तीन प्रकारका है) ॥ २१ ॥ यदि अर्थको न
 कह कर शुद्धपाठ किया जाता है, तो वह भी उत्तम पाठकी समान
 होजाता है, इसका नौ दिनका पाठ उत्तम कहलाता है इक्कीस
 दिनका पाठ मध्यम कहलाता है ॥ २२ ॥ और इक्कीस दिन
 का पाठ निकृष्ट कहलाता है, वह सुखसे किया जासकता है,
 अतः उसको करना चाहिये, कलियुगमें साध्यों (साधने योग्यों)
 का साधन बहुत दिनोंमें होसकता है इस लिये नारायणात्मा
 (व्यासजी) ने यह साध्य पारायण कहा है, कलियुगमें नवाह
 और एकविंशाह (हरिवंशका पारायण) गर्जनाकर रहा
 है ॥ २३-२४ ॥ इसका एकत्रिंशाहिक (इक्कीसदिनोंमें पूर्ण

वन्ध्यादोषविनाशकः । गोव्रतं तु स्त्रिया कार्यं । पारणं पुरुषेण च ॥ २५ ॥ श्रवणारभणे राजन् यथावत् कथयामि ते । अवसायान्तपर्यन्तं कार्यं मासव्रतं शुभम् ॥ २६ ॥ चतुर्थ्यां प्रातरुत्थाय हृष्टेन मनसा स्त्रियो गोव्रतं नियतं कार्यं निराहारं निरुदकम् २७ सूर्यास्तकालपर्यन्तं यावद्ग्रामागमो भवेत् । आगतां च सवत्सां हि पूजयित्वा यथाविधि ॥ २८ ॥ यवसं पुष्कलं दत्त्वा यवान् कुक्ते स्वयम् । एवं मासे चतुर्थ्यां सा शुक्लायां व्रतमाचरेत् २९ स्त्रीव्रतं कथितं राजन् पुरुषस्य तथैव च । एवं मासव्रतं कृत्वा स पुत्रं लभते ब्रुवम् ॥ ३० ॥

इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये श्रवणादिविधिकथनं नाम प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥

होने वाला पाठरूप) यज्ञ वन्ध्यात्वके दोषको दूर कर देता है, इसको सुननेका आरम्भ करते समय)पत्नीको गोव्रत करना चाहिये और पतिको पारण करना चाहिये, हे राजन् ! मैं उसको तुझ यथावत् सुनाता हूँ, इस शुभ व्रतका आरम्भ कर इसको एक मास तक करना चाहिये ॥ २५ ॥ २६ ॥ स्त्री मनमें प्रसन्न होती हुई चतुर्थीके दिन प्रातःकाल उठ कर निराहार और निर्जल रह कर नियमपूर्वक सूर्यास्तके समय तक कि-जिस समय गौएँ ग्राममें आती हैं उस समय तक व्रतको करे गौके आने पर उसकी और उसके बड़ड़ेकी शास्त्रानुसार पूजा करे ॥ २७ ॥ २८ ॥ फिर उसको जौका भुम आदि देकर, अपने आप भी जौका अन्न खाय, इस प्रकार पत्नी शुक्ल पत्तकी चतुर्थीसे व्रतका आरम्भ करे ॥ २९ ॥ हे राजन् ! इस प्रकार तुझसे पति और पत्नीके करने योग्य व्रतका वर्णन कर दिया, इस प्रकार एक मास तक व्रत करने पर अवश्य ही पुत्र होता है ॥ ३० ॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

वैशंपायन उवाच । अथ ते संपवक्ष्यामि नवाहश्रवणे विधिम् ।
 सहायैर्वहुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्त्वयम् ॥ १ ॥ दैवज्ञं तु
 समाहूय सुहूर्तं पृच्छय यत्नतः । विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परि-
 कल्पयेत् ॥ २ ॥ नभस्यश्चाश्विनोर्जां च मार्गशीर्षः शुचिर्नभः ।
 एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां कामसूचकाः ॥ ३ ॥ सहायाश्च
 त एवात्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये । देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रोच्यते
 प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यां कुटुंबिभिः ।
 देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः ॥ ५ ॥ तेष्वेव पत्रं
 प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम् । सतां समाजो भविता नवरात्रं
 सुदुर्लभः ॥ ६ ॥ आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्प-
 येत् । तीर्थं वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं स्मृतम् ॥ ७ ॥ विशाला

वैशंपायन मुनिने कहा, कि-अब मैं तुमसे नवाहश्रवणकी
 विधि कहता हूँ, यह विधि प्रायः बहुतसे सहायकोंकी सहायतासे
 ही सिद्ध होसकती है ॥ १ ॥ पहिले ज्योतिषीको बुला यत्नपूर्वक
 सुहूर्त ब्रूक कर जितना द्रव्य विवाहमें उठ सकता है वैसे धनकी
 कल्पना (प्रवन्ध) करे ॥ २ ॥ भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्ग-
 शीर्ष शुचि और श्रावणके महीने कथा आरम्भ करने वाले
 मनुष्योंकी कामनाके सूचक (पूर्ण करने वाले) हैं ॥ ३ ॥ जो
 पुरुष उद्योगी हों उनको ही इस काममें सहायक बनाना चाहिये,
 और देश देशान्तरोंमें यह बात प्रसिद्ध करा देनी चाहिये ॥ ४ ॥
 कि-मेरे यहाँ कथा होगी अतः कुटुम्बियोंको मेरे यहाँ पधारना
 चाहिये, और कीर्तन करनेमें उत्सुक रहने वाले देशदेशान्तरोंमें
 जो वैष्णव रहते हों ॥ ५ ॥ उनके पास भी इस आशयका पत्र
 भेजना चाहिये, यहाँ पर नौ रात तक सज्जनोंका समाज होगा,
 जो दुर्लभ है ॥ ६ ॥ फिर सब आगन्तुकोंके ठहरनेका प्रवन्ध करे,
 तीर्थ वन अथवा घरमें हरिवांशका श्रवण कहा है ॥ ७ ॥ जहाँ

वस्तुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्थलम् । शोधनं मार्जनं भूमिर्नोपनं
 धातुमण्डनम् ॥ ८ ॥ गृहोपस्करमुद्गृह्य गृहकोणो निवेशयेत् ।
 कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीस्तंभमण्डितः ॥ ९ ॥ फलपुष्प-
 दलैर्विष्वक्वितानेन विराजितः । चतुर्दिक्षु ध्वजारोपैस्तोरण्येन
 विराजितः ॥ १० ॥ ऊर्ध्वं सप्तैव लोकारच सप्ताधः परिकल्प-
 येत् । तेषु विषा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य वै ॥ ११ ॥ पूर्व
 तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम् । वस्तुधापि तथा दिव्य-
 मासनं परिकल्पयेत् ॥ १२ ॥ उदङ्मुखो भवेद्ब्रह्मा श्रोता वै
 माङ्मुखस्तथा । प्राङ्मुखोऽथ भवेद्ब्रह्मा श्रोता चोदङ्मुखस्तथा ॥ १३ ॥
 विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशारदः । दृष्टान्तकुशलो

पर विशाल भूमि हो तहाँ पर सभास्थल बनाना चाहिये और उस
 भूमिको ऋद्धिवा पुतपा कर गोबरसे लीप कर (गेरु आदि)
 धातुओंसे भूषित करे ॥ ८ ॥ उस समय घरके सामानको उठा
 कर घरके कोनेमें रख देय और केलेके खंभोंसे भूषित करके
 ऊँचा मण्डप बनावे ॥ ९ ॥ उसके चँदोबेमें सब ओरसे फल
 और पुष्प लगाने चाहिये और चारों दिशाओंमें ध्वजा और
 तोरण लगावे ॥ १० ॥ ऊपर और नीचे सात २ लोहोंकी
 कल्पना करे और उनमें विरक्त ब्राह्मणोंको समझा कर प्रति-
 ष्ठित करे ॥ ११ ॥ फिर उत्तरनी ओर उनके आसनोंकी कल्पना
 करे और ब्रह्माके लिये भी दिव्य आसनकी कल्पना करे ॥ १२ ॥
 श्रोता पूर्णकी ओर मुख करके बैठे और ब्रह्मा उत्तरकी
 ओर मुख करके बैठे अथवा श्रोता उत्तरकी ओर मुख करके
 बैठे और ब्रह्मा पूर्णकी ओर मुख करके बैठे ॥ १३ ॥
 ब्रह्मा उस विप्रको बनाना चाहिये, जो विरक्त वैष्णव-वेदशास्त्र-
 विशारद दृष्टान्त देनेमें कुशल धीर और दयालु हो ॥ १४ ॥
 क्योंकि-वेद और वेदान्तके तत्त्वोंको जानने वाले गुरु जिनको

धीरो वक्ता कार्यो दयान्वितः ॥ १४ ॥ वेदवेदांततत्त्वज्ञैर्गुरुभिर्व-
 ह्मवादिभिः । नृणां कृतोपदेशानां सद्यः सिद्धिर्हि जायते ॥ १५ ॥
 अथान्यजनसामान्यैर्गुरुभिर्नीतिकोविदैः । नृणां कृतोपदेशानां
 सिद्धिर्भवति तादृशी ॥ १६ ॥ -अनेकधर्मविभ्रान्ताः स्तेनाः पाखं-
 दवादिनः । धर्मशास्त्रकथोच्चारैस्त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः १७
 वक्तुः पार्ष्णे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः । पण्डितः संशय-
 च्छेत्ता लोकबोधनतत्परः ॥ १८ ॥ वक्ता चौरं प्रकर्तव्यं दिना-
 दर्वाकं व्रताप्तये । वक्तुः श्रोतुश्चन्द्रशुद्धौ दंपत्योः शुभतारके १९
 अरुणोदये विनिर्वात्य शौचं स्नानं समाचरेत् । नित्यं संज्ञेपतः
 कृत्वा संध्याद्यं प्रयतस्ततः ॥ २० ॥ सुज्ञातितपाणिपादः स्वस्ति-
 वाचनपूर्वकम् । गोमयोपलिप्तदेशे सर्वतोभद्रकल्पनम् ॥ २१ ॥

उपदेश देते हैं, उन मनुष्योंके मनोरथ तत्काल ही सिद्ध होजाते
 हैं । १४ । इसके अतिरिक्त नीतिचतुर साधारण गुरुओंसे उप-
 देश लेने वाले मनुष्योंको वैसे ही सिद्धि मिलती है ॥ १५ ॥
 जो मनुष्य बहुतसे धर्मोंमें उलझ रहे हों चोर हों और धर्मशास्त्र-
 की बातोंके विषसे पाखण्डकी बातें कहते हों ऐसे पण्डितोंको
 त्याग देय । १७ । वक्ता (कथावाचक) की सहायता करनेके
 लिये वक्ताकी समान पण्डित संशयोंको दूर करने वाला और
 मनुष्योंको समझानेमें तत्पर रहने वाला एक और पण्डित बैठाना
 चाहिये ॥ १८ ॥ व्रतकी दीक्षा लेनेकेलिये वक्ताको पहिले दिनमें
 चौर बनवाना चाहिये, और वक्ता श्रोता और पति पत्नीको
 चन्द्रशुद्धि और नक्षत्र (शुद्धि) देखनी चाहिये । १९ । अरुणो-
 दयमें उठ कर शौच और स्नान करे फिर संज्ञेपसे नित्य कर्मको
 करके संध्याको प्रयत्नसे करे २० फिर अपने हाथ पैरोंको भली-
 भाँति धोकर स्वस्तिवाचन करा कर गोमयसे लिये हुए स्थान
 में सर्वतोभद्र करे ॥ २१ ॥ और अपनी शक्तिके अनुसार सब

स्वीयशक्त्यनुसारेण पूजनं सर्वमाचरेत् । कथाविघ्नविनाशार्थं
 गणनाथं प्रपूजयेत् ॥ २२ ॥ सलक्ष्मीपुत्रसहितं गोपालं स्थाप-
 येत्ततः । निर्विघ्नेनैव सिद्धयर्थं देवपूजनपूर्वकम् ॥ २३ ॥ संकल्पं
 कुर्यात् । अद्यहेत्यादिदेशकालौ स्मृत्वा अमुकगोत्रस्यामुकप्रवर-
 स्यामुकशर्मणो मम जन्मनि संचितमहापातकपटलनाशपूर्वकं तेन
 पापसंचयेन कृतसंतानवाधकताविनाशपूर्वकमिह जन्मनि संता-
 नोत्पत्तिहेतवे तस्य सन्तानस्य शरदां शतमायुषो वृद्धयर्थमात्म-
 नश्च सकलसुखाप्तिहेतवे इह शरीरशुद्धयर्थं परत्र चेन्द्रादिलोकगति-
 क्रमणपूर्वकश्रीमद्विष्णुभक्त्युद्रेकजनितकल्पावधितल्लोकगमनतद्वा-
 सपूर्वकतत्स्वरूपावाप्तिहेतवे श्रीमद्धरिवंशपुराणश्रवणं कर्तृकृतया
 करिष्यावहे । अन्यतरकर्तृत्वे करिष्ये इत्येव संकल्पः । इति
 कृत्वा तु संकल्पं वक्तारं वृणुयात्ततः । श्रुताध्ययनसंपन्नं पूज-

पूजन करे कथाके विघ्नको दूर करनेके लिये गणनाथ गणो-
 शजीका पूजन करे, फिर निर्विघ्नतासे कार्य सिद्ध होनेके निमित्त
 लक्ष्मी और पुत्रसहित गोपालकी और देवताओंकी पूजा
 करे ॥ २२—२३ ॥ * फिर संकल्प करे (संकल्प २३ श्लोक
 के अनन्तर और २४ वे श्लोकके पहिले लिखा हुआ है) यज-
 मानका होने पर “अन्यतरकर्तृत्वे करिष्ये ” कहना चाहिये इस
 प्रकार संकल्प करके गुरुमुखसे विद्याको सुनने चाले और
 अध्ययन करने वाले वक्ताका वरण करे, फिर सुवर्णकी अँगूठी
 कुण्डल सफेद वस्त्र दुपट्टा पगड़ी पुष्पा ताम्बूल सोलह पल
 सोना सुपारी और चावल लेकर शुद्धमनसे वक्ताकी शास्त्रा-
 नुसार पूजा करके (संकल्प करे) (संकल्प-अद्यहेत्यादि
 अमुकगोत्रममुकशर्मणं ब्राह्मणमेभिश्चन्दनताम्बूलसुवर्णवस्त्रादि-
 भिरैरिवंशश्रवणे वाचकृत्वेनावां दम्पती त्वां वृणीवहे । फिर
 आचार्यके “वृत्तोऽस्मि” कहने पर “व्रतेन दीक्षागामोति” आदि

यित्वा यथाविधि ॥ २४ ॥ सुवर्णमृदिकां मृदा कुण्डले च विशो-
पतः । शीतवस्त्रं सोत्तरीयं सौष्णीपेण समन्वितम् ॥ २५ ॥
सुवर्णपोडशपलं पुष्पतांबूलसंपुतम् । पूगीफलं चाक्षतान् वै
गृहीत्वा शुद्धमानसः ॥ २६ ॥ (संकल्पः ॥ अथेहेत्यादि अष्टक-
गोत्रमष्टकशर्माणं ब्राह्मणमेभिर्वन्दनतांबूलसुवर्णवस्त्रादिभिर्हरि-
वंशश्रवणे वाचकत्वेनावां दम्पती त्वां हृणीवहं । हृतोस्मीति
तेनोक्ते । व्रतेन दीक्षायाप्नोति इति मन्त्रेण वस्तुर्दक्षिणकरमूले
रक्षाबन्धनं कार्यम् । ब्राह्मणेन श्रोतृणां रक्षाबन्धनं कार्यम् ॥)
चन्दनाधुपचारैस्तु वस्त्रपुष्पाक्षतैर्गन्धा । हेमालंकरणैः पूगैः फलै-
र्ऋतुसमुद्भवैः ॥ २७ ॥ पुराणपूजनं प्रोक्तं विधिना षोडशेन तु ।
पूजयित्वा द्विजश्रेष्ठाः श्रवणं फलदं स्मृतम् ॥ २८ ॥ तस्मात् सर्व-
प्रयत्नेन श्रोतव्यं विधिपूर्वकम् । अथ व्यासं नमस्कुर्युर्मन्त्रमेतमु-
दीरयेत् ॥ २९ ॥ नमस्ते भगवन् व्यास सर्वशास्त्रार्थकोविद ।
ब्रह्मविष्णुपदेशानमूर्ते सत्यवतीसुत ॥ ३० ॥ इति व्यासं नम-
स्कृत्य शुभे देशे कुशासने । उपविश्य प्रतिदिनमुल्लसत् पीत-

मंत्र पढ़ कर बक्काके दाहिने पहुँचेमें रक्षामूत्र बाँधना चाहिये,
ब्राह्मणके द्वारा सुनने वालोंका रक्षाबंधन कराना चाहिये)
चन्दन आदि उपचारोंसे बस्त्र पुष्प तथा अक्षत, सुवर्णके गहने
सुपारी और ऋतुके फल और षोडशोपचारसे पुराणका पूजन
करना लिखा है, हे राजन् ! ब्राह्मणोंकी पूजा कर श्रवण करना
फल देने वाला कदा है ॥ २४-२८ ॥ इस लिये इसको प्रपन्न-
पूर्वक सुनना चाहिये, फिर सब व्यासजीको प्रणाम करे फिर
निम्नलिखित (३० वें) मंत्रका उच्चारण करे ॥ २९ ॥ हे
सब शास्त्रोंके अर्थ करनेमें चतुर प्रज्ञा विष्णु और महेशमूर्ति
सत्यवतीपुत्र भगवन् व्यासजी आपको प्रणाम है ॥ ३० ॥ इस
प्रकार व्यासजीको प्रणाम कर प्रतिदिन शुभ देशमें कुशासन पर

मानसः ॥ ३१ ॥ बालो युवाथ वृद्धो वा दरिद्रो दुर्बलोऽपि वा ।
पुराणज्ञः सदा वन्द्यः पूज्यश्च सुकृतार्थिभिः ॥ ३२ ॥ नीचबुद्धि
न कुर्वीत पुराणज्ञे कदाचन । यस्य वक्राहता वाणी कामधेनुः
शरीरिणाम् ॥ ३३ ॥ गुरवः सन्ति लोकस्य जन्मतो गुणतश्च
ये । तेषामपि च सर्वेषां पुराणज्ञः परो गुरुः ॥ ३४ ॥ भवकोटि-
सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा च सीदति । यो ददाति पुण्यवृत्तिं कोन्य-
स्तस्मात् परो गुरुः ॥ ३५ ॥ पुराणज्ञः शुचिर्दान्तः शातोऽपि
जितमत्सरः साधुः कारुण्यवान् वाग्मी वदेत् पुण्यकथां सुभीः ३६
व्यासासनसमारूढो यदा पौराणिको द्विजः । आसमाप्तेः प्रसं-
गस्य नमस्कुर्वान्न कस्यचित् ॥ ३७ ॥ ये धूर्ता ये च दुर्वृत्ता ये

वैठ कर मनमें प्रसन्न होकर (कथा सुने) ॥ ३१ ॥ पुराणको
जानने वाला बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो, अथवा
दुर्बल हो तब भी उसकी सदा पूजा करनी चाहिये और पुण्य
चाहने वालोंको उसकी वन्दना भी करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ जिनके
गुणसे प्राणियोंके लिये कामधेनु रूप वाणी निकलती है उन पुराण
जानने वाले ब्राह्मणोंमें नीचबुद्धि कभी न करे ॥ ३३ ॥ जो
मनुष्य जन्मसे और गुणसे लोकके गुरु होते हैं उन सबका भी
पुराणको जानने वाला परम गुरु होता है ॥ ३४ ॥ जीव करोड़ों
योनियोंमें जन्म लेकर दुःख पाता रहता है उसको जो पुण्यवृत्ति
देता है उससे अधिक दूसरा गुरु कौन होसकता है ? ॥ ३५ ॥
पुराणको जानने वाला पाँच चतुर शमदमसम्पन्न मत्सरको
जीतने वाला साधु दयालु और विद्वान् पुरुष पुण्यमयी कथाको
कहे ॥ ३६ ॥ जब पुराणको बोलने वाला ब्राह्मण व्यासगद्दी
पर बैठ जाय तो कथाकी समाप्तिकर किसीको नमस्कार न
करे ॥ ३७ ॥ जो धूर्त हों, जो दुर्गचारी हों और जो (तर्क
कुतर्क करके) जीतना चाहते हों उन कुटिल आचरण करने वालों

चान्ये विजिगीषवः । तेषां कुटिलवृत्तीनामग्रे नैव वदेत् कथाम् ३८
 न दुर्जनसमाकीर्णं न शूद्रश्चापदावृत्ते । देशे नापूतसदने वदेत्
 पुण्यकथां सुधीः ॥ ३९ ॥ सद्व्रामे सुजनाकीर्णं सुक्षेत्रे देवता-
 लये । पुण्ये नदनदीतीरे वदेत्पुण्यकथां सुधीः ॥ ४० ॥ ईदृशा-
 द्वाचक्राद्राजन् श्रुत्वा फलामनाप्नुयात् । ऐहिकामुष्मिकं शर्म पुण्यं
 पुत्रादिसिद्धिदम् ॥ ४१ ॥ महापापादिशमनं पुराणं हरिवंश-
 कम् । योज्यं पुत्रादिसिद्धयर्थं हरिवंशं जितेन्द्रियैः ॥ ४२ ॥ शृणु-
 यात् सर्वभावेन पुण्यं पापप्रणाशनम् ॥ ४३ ॥

इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये श्रवणादिविधि-

कथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

वैशम्पायन उवाचाजपाद्धि श्रवणं श्रोक्तं हरिवंशस्य सूरिभिः
 पितॄन् सन्तर्प्य शुद्धवर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ १ ॥ मण्डलञ्च

के सामने कथा न कहे ३८ सुबुद्धि पुरुष जहाँ दुर्जन धिर रहे
 हों, जहाँ शूद्र और मांसाहारी बैठे हों उस देशमें और जो भवन
 अपवित्र हो तहाँ पुण्यकथाको न कहे ॥ ३९ ॥ किन्तु सुबुद्धि
 पुरुष सज्जनोके ग्राममें सज्जनोसे भरे हुए क्षेत्र (तीर्थ) में देवा-
 लयमें और पुण्यप्रद नद नदियोंके तट पर कथा कहे ॥ ४० ॥
 हे राजन् ! ऐसे (इस प्रकार कथा) बॉवने वाले पुरुषसे कथा
 सुनने पर मनुष्यका इस लोकमें तथा परलोकमें कल्याण होता
 है और उसको पुत्र आदि सिद्धिको देने वाला फल मिलता
 है ॥ ४१ ॥ हरिवंश पुराण बड़े बड़े पापोंको दूर करने वाला है
 जितेन्द्रिय पुरुष पुत्र आदिकी प्राप्तिके निमित्त हरिवंशकी कथा
 को बचवावे ॥ ४२ ॥ दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २ ॥

वैशम्पायन मुनिने कहा, कि विद्वानोंने कहा, है कि-जपके
 साथ हरिवंशका श्रवण करना चाहिये, (इसको सुननेसे पहिले)
 पितरोंका तर्पण करके शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त करे ॥ १ ॥ तहाँ

मकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा । कृष्णमुद्गिरय मन्त्रेण चरेत्
 पूजाविधिं क्रमात् ॥ २ ॥ मदक्षिणानमस्कारान् पूजान्ते स्तुति-
 माचरेत् ॥ ३ ॥ संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे ॥३॥
 कर्मग्राह्यृहीतोऽहं मामुद्धर भवार्णवात् । श्रीमद्वै हरिवंशस्य पूजा
 कार्या मयत्नतः ॥ ४ ॥ विधिना षोडशो नैव धूपदीपसमन्विता ।
 ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् ॥५॥ स्तुतिः मसन्न-
 चित्तेन कर्तव्या केवलं तदा । स्वीकृतोऽसि मया नाथ पुत्रार्थं भव-
 सागरे ॥ ६ ॥ मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया । निर्वि-
 घ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव ॥७॥ एवं दीनवचः प्रोक्त्वा
 वक्तारं चाथ पूजयेत् । संभूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्त-
 वेत् ॥ ८ ॥ व्यासरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद । एतत् कथा-

पर मण्डल बना कर विष्णु भगवान्की स्थापना करे फिर कृष्ण
 को लक्ष्य करके मंत्रोंसे शास्त्रानुसार क्रमशः पूजा करे मदक्षिणा
 और नमस्कार करके पूजा करनेके अनन्तर (इस प्रकार) स्तुति
 करे, कि—हे करुणानिधे ! संसारसागरमें डूबते हुए मुझे दीनका
 आप उद्धार करिये ॥३॥ हे प्रभो ! मुझे कर्मरूपी नाकेने पकड़
 रक्खा है हे नाथ ! आप संसारसागरमेंसे मेरा उद्धार करिये
 धूप दीप आदि सहित षोडशोपचारसे मयत्नपूर्वक शोभासम्पन्न
 हरिवंशकी पूजा करनी चाहिये, फिर उसके सामने श्रीफल
 धर कर नमस्कार करे ॥ ४-५ ॥ फिर मसन्नचित्तसे उनकी
 स्तुति करनी चाहिये कि—हे नाथ ! मैंने पुत्रप्राप्तिके लिये भव-
 सागरमें आपका आश्रय लिया है ॥ ६ ॥ मेरे इस मनोरथको
 आप निर्विघ्नरीतिसे सर्वथा सफल करिये, हे केशव ! मैं आपका
 दास हूँ ॥ ७ ॥ इस प्रकार दीन वचन कहनेके अनन्तर वक्ता की
 पूजा करनेका आरंभ करे और पूजा करनेके अनन्तर उसको
 वस्त्र और आभूषणोंसे अलंकृत करके वक्ताकी स्तुति करे ॥८॥

प्रकाशनेन मदज्ञानं विनाशय ॥६॥ तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः
 श्रेयसे मुदा । नवरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि । १० ।
 वरणं पञ्चविंशत्यां कथाभङ्गनिवृत्ताये । कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वाद-
 शान्तरविद्यया ॥ ११ ॥ सन्तानगोपालमन्त्रो महारुद्रजपस्तथा ।
 पूजनं पार्थिवस्यैव गणनाथमनूज्यपन् ॥ १२ ॥ ब्राह्मणान्
 वैष्णवांश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिणः । नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञः
 स्वयमासनमाशिशेत् ॥ १३ ॥ लोकवित्तधनागारसर्वचिंतां व्युदस्य
 च । कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् ॥ १४ ॥ दंपती
 शुद्धमनसो श्रद्धाभक्तिसमन्विता । श्रद्धैव सर्वधर्माणां मातेव हित-
 कारिणी ॥ १५ ॥ श्रद्धैव च नृणां सिद्धिर्जायते लोकयोर्द्वयोः ।

कि-हे व्यासरूप ! हे ज्ञानके ज्ञाता ! हे सर्वशास्त्रविशारद ! इस
 हरिवंशकी कथाका प्रकाश करके मेरे अज्ञानको दूर करिये ॥६॥
 फिर कल्याणके लिये प्रसन्नतापूर्वक नियम पालन करना
 चाहिये और उस नियमको नौरात तक यथाशक्ति धारण करना
 चाहिये ॥ १० ॥ फिर कथाके बीचमें विघ्न न पड़े, इस लिये
 पाँच ब्राह्मणोंका वरण करे, वे ब्राह्मण "ॐ नमो भगवते
 वासुदेवाय" इम द्वादशान्तर मंत्रका जप करें ॥ ११ ॥
 (अथवा) वे सन्तानगोपालस्तोत्रका मन्त्र व महारुद्रका जप करें
 अथवा पार्थिव शिरका अथवा गणनाथका जप करें ॥ १२ ॥
 फिर ब्राह्मणोंको और रीर्तन करने वाले दूमरे वैष्णवोंको प्रणाम
 करके और उनकी पूजा करके उनके आज्ञा देने पर आसन पर
 बैठे ॥ १३ ॥ जो पुरुष लोक धनभण्डार आदिकी सब चिन्ताओं
 को दूर करके शुद्ध बुद्धिसे कथामें चित्त लगाता है उसको उत्तम
 फल मिलता है ॥ १४ ॥ (कथा सुनते समय) दम्पतिको
 स्वपना मन शुद्ध रखना चाहिये और श्रद्धा तथा भक्ति रखनी
 चाहिये, क्योंकि सब धर्मोंमें श्रद्धा ही प्राणीका माताकी समान

श्रद्धया भजतः पुंसः शिलापि फलदायिनी ॥ १६ ॥ मूर्खोऽपि
 पूजितो भक्त्या गुरुर्भवति ज्ञानदः । श्रद्धया भजतो मन्त्रस्तव-
 कोऽपि फलप्रदः ॥ १७ ॥ श्रद्धया पूजितो देवो नीचस्यापि वर-
 प्रदः । अश्रद्धया कृता पूजा दानं यज्ञस्तपोव्रतम् ॥ १८ ॥ सर्व
 निष्फलतां याति पुण्यं बन्धतरोरिव । सर्वत्र संशयाविष्टः श्रद्धा-
 हीनोऽतिचञ्चलः ॥ १९ ॥ परमार्थात् परिभ्रष्टः संसृतेर्न हि
 मुच्यते । मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरौ ॥ २० ॥ यादृशी
 भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी । अतो भावमयं विश्वं पुण्यं
 पापं च भाषतः ॥ २१ ॥ ते उभे भावहीनस्य न भवेतां फदाचन ।
 तस्मात् सर्वात्मना राजन् श्रद्धाभक्ती समाश्रयेत् ॥ २२ ॥ आसू-

हित करने वाली है ॥ १५ ॥ श्रद्धासे ही मनुष्योंको इस लोकमें
 तथा परलोकमें इन दोनों लोकोंमें सिद्धि मिलती है, श्रद्धापूर्वक
 सेवा करने वाले पुरुषको शिला भी फल देदेती है ॥ १६ ॥
 मूर्खकी भी भक्तिपूर्वक पूजाकी जाती हो, तो वह ज्ञान देने वाला
 गुरु होजाता है, श्रद्धापूर्वक साधारण स्तोत्रके मन्त्रसे भी पूजा
 की जाती है तो उससे भी फल मिलता है ॥ १७ ॥ श्रद्धापूर्वक
 पूजा करनेसे देवता नीचको भी वर देदेते हैं, जो दान तप पूजा
 यज्ञ और तप अश्रद्धासे किया जाता है, वह सब बन्ध्य वृत्तके
 पुण्यकी समान निष्फल होजाता है सर्वत्र सन्देहमें भरा रहने
 वाला श्रद्धाहीन और अतिचञ्चल पुरुष परमार्थसे भ्रष्ट होजाता
 है और संसारसे नहीं छूटसकता, मन्त्रमें तीर्थमें ब्राह्मणमें देवता
 में ज्योतिषीमें औपधिमें और गुरुमें जिसकी जैसी भावना होती
 है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है अतः यह विश्व भावमय है
 और भावना करने वालेको ही पुण्य और पाप लगते हैं १८-२१
 और जो भावहीन होता है उसका पुण्य और पाप कभी स्पर्श
 नहीं करते हैं इस लिये हे राजन् ! सर्वात्मभावसे श्रद्धा और

योदियमारभ्य सार्धं त्रिपहरार्धकम् । वाचनीया कथा सम्यग् धीर-
कण्ठं सुगीमता ॥ २३ ॥ कथाविरामः कर्तव्यो मध्यान्हे घटिका-
द्वयम् । तत्कथामनुकार्य नै कीर्त नञ्च परैस्तदा ॥ २४ ॥ एवं श्रुत्वा
विधानेन सर्वान् कामानवाप्नुयात् ॥ २५ ॥

इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये श्रवणादिविधि-
कथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

वैशम्पायन उवाच । नवाहव्रतिनां पुंसां नियमान् शृणु
सत्तम । एककालाशनश्चैव अयःशायी भवेन्नरः ॥ १ ॥ स्थातव्यं
ब्रह्मचर्येण यावद् ग्रन्थः समाप्यते । हरिवंशे तथा राजन् पायसं
चरुभोजनम् ॥ २ ॥ पारणे पारणे यातं तथावद्भरतर्षभ । मल-
मूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः ॥ ३ ॥ हविष्यान्नेन कर्तव्य-
मेकवारं कथार्थिना । उपोष्य नवरात्रं वा शक्तिश्चेच्छृणुयात्तदा ४

भक्तिका आश्रय लेय ॥ २२ ॥ बुद्धिमान् पुरुष सूर्योदयसे लेकर
साढ़े तीन महर तरु गम्भीर कण्ठसे कथाको भली प्रकार
वाँचे २३ और मध्यान्हमें दो घड़ीके लिये कथाका विश्राम करे
और कथाके अनन्तर दूसरे मनुष्योंको कीर्तन करना चाहिये २४
इस प्रकार विधिविधानसे कथाको सुननेसे सब कामनाएँ
सिद्ध होजानी हैं ॥ २५ ॥ तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि—हे श्रेष्ठ पुरुष ! अब तुम नवाह
व्रत करने वाले मनुष्योंके नियमोंको सुनो, नवाहव्रती दिनमें एक
समय भोजन करे, नीचे शयन करे ॥ १ ॥ और जब तरु ग्रन्थ
समाप्त हो तब तरु ब्रह्मचर्यव्रतमें स्थित रहे, और हे राजन् ! हरि-
वंशको सुनते समय दुग्धके चरुका भोजन करे ॥ २ ॥ हे भरत
र्षभ ! पारणा करने वाले पुरुष मत्स्यके पारणाके अन्तमें ऐसा
करें, मल और मूत्रका जय करनेके लिये हलका भोजन करना
सुख देने वाला है ३ कथा सुनने वालेको एक बार हविष्यान्त

घृतपानं पयः पानं कृत्वा वा शृणुयात् सुखम् । फलाहारैण वा
 श्राव्यमेकमुक्तेन वा पुनः ॥ ५ ॥ सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं
 श्रवणाय तत् । भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम् ॥ ६ ॥
 नोपवासो वरः मोक्तो कथाविघ्नकरो यदि । शृणुयाद्यः शुचि-
 स्तिष्ठन्नेकचित्ततया सदा ॥ ७ ॥ प्रातः स्नानादिकं कृत्वा पुत्र-
 दारसमन्वितः । पुराणश्रवणं कुर्यात् कृष्णपूजनपूर्वकम् ॥ ८ ॥
 पुष्पधूपफलैः सम्यङ् नैवेद्यैः श्रद्धयोद्बधृतैः । गुरोः शुश्रूषणं तेन
 कर्तव्यं फलकाङ्क्षिणा ॥ ९ ॥ श्रुत्वा यथेच्छया शौचं कार्यं पुण्येन
 वर्त्मना । सायंकाले गुरुश्रेष्ठं तोषयित्वा सवान्धवः ॥ १० ॥ स्वपरि-
 ग्रहसंगेन सुखं स्वपिति वै तदा । नियमादि प्रकर्तव्यं पापानां

(के साथ लघ्वाहार) करना चाहिये और शक्ति हो तो नी
 रात तक उपवास करता हुआ कथाको सुने ४ अथवा धीको
 या दूधको पीकर सुखपूर्वक कथाको सुने अथवा फलाहार करके
 अथवा एक बार भोजन करके कथाको सुने ॥ ५ ॥ इनमेंसे
 जो सुखसे सय सकता हो उस अहारको कथा सुननेके लिये
 भक्षण करे, मैं तो भोजनको अच्छा समझता हूँ, क्योंकि-उस
 को खानेसे कथा सुनी जासकती है ॥ ६ ॥ यदि उपवाससे
 कथामें विघ्न पड़ता हो तो उपवासको अच्छा नहीं कहा है, जो
 कथाको सुने वह सदा पवित्र चित्तसे एकाग्र होकर (कथा सुनने
 को) बैठे ॥ ७ ॥ श्रोता अपने स्त्री पुत्रों सहित प्रातःकाल स्नान
 आदि करके श्रीकृष्णकी पूजा करे फिर इस पुराणको सुने =
 फल चाहने वाले मनुष्यको श्रद्धापूर्वक लाये हुए पुष्प धूप फल
 और नैवेद्यसे गुरुकी शुश्रूषा करनी चाहिये ॥ ९ ॥ हरिवंशको
 सुननेके अनन्तर अपनी इच्छानुसार पुण्यमयीरीतिसे (स्नान
 आदि) शौच करना चाहिये, फिर सायंकालमें अपने बान्धवोंको
 साथमें लेकर गुरुको सन्तुष्ट करे, फिर अपने कृदुम्बियोंके साथ

विनिवर्तने ॥ ११ ॥ यथासुखं व्यवहरेन्नित्यं विष्णुपरायणः ।
 शुचिः शुद्धमनास्तिष्ठन् पत्रावल्यां च भोजनम् ॥ १२ ॥ कथा-
 समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती । द्विदलं मधु तैलं च
 गरिष्ठान्नं नथैव च ॥ १३ ॥ भावदुष्टं पर्युपितं जह्यान्नित्यं कथा-
 व्रती । वृंताकं च फलिंगं च दग्धमन्नं मसूरिकाम् ॥ १४ ॥ निष्पा-
 वानामिषाद्यं च वर्जयेच्च कथाव्रती । पलांडुं लशुनं द्विगुं मूलकं
 गुंजनं तथा ॥ १५ ॥ नालिकामूलं कूप्यांङ्गं नैवाद्याच्च कथा-
 व्रती । कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च ॥ १६ ॥ दंभं
 मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती । वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोत्र-
 तिनां तथा ॥ १७ ॥ स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेच्च कथाव्रती ॥

सुखपूर्वक शयन करे, पापोंको दूर करनेके लिये (श्रोताको)
 निपम आदि करने चाहिये ॥ १०-११ ॥ विष्णुमें परायण
 रहने वाला मनुष्य जिसमें सुख मिले उस प्रकार वर्ताव करे,
 और पवित्र होकर शुद्ध मनसे पत्तल पर भोजन जीमें ॥ १२ ॥
 व्रतधारी मनुष्य कथा समाप्त होने पर भोजन करे, कथाका व्रत
 धारण करने वाला मनुष्य द्विदल (चना आदि) मधु तेल,
 गरिष्ठ अन्नको और भावदूषित अन्नको अर्थात् जिसको देखकर
 चित्तको धिन लगे उस अन्नको और वासी अन्नको न खाय,
 कथाका व्रत धारण करने वाला मनुष्य बेंगन सिरस जला
 दुध्या अन्न मसूर भैंटदास और मांसमय भोजनको त्याग देय,
 और कथाका व्रत धारण करने वाला मनुष्य प्याज ब्हसन हींग
 गाजर नालिकामूल (शाकविशेष) और पेटेको न खाय और
 कथाव्रती मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह मद मान मत्सर और
 दंभको दूर करदे, और कथाव्रतीपुरुष वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु-
 षती गोत्रती स्त्री राज्य और उदार पुरुषोंकी निन्दा करना
 त्याग दे, और कथाव्रती पुरुष रजस्वला स्त्री म्लोच्छकी स्त्री

रजस्वलां त्यजेन्मलेच्छां पतितां व्रात्यकैः सह ॥ १८ ॥ द्विज-
द्विड्वेदवाहीश्च न वदेच्च कथाव्रती । सत्यं शौचं दयां मौनपार्ज्वं
विनयं तथा ॥ १९ ॥ उदारं मानसं तद्वत्कुर्यादेवं कथाव्रती ।
श्रद्धाभक्तिसमायुक्ता नान्यकार्येषु लालसाः ॥ २० ॥ चाग्यताः
शुचयोऽव्यग्राः श्रोतारः पुण्यभागिनः । अभयत्या ये कथां पुण्यां
शृण्वन्ति मनुजाधमाः ॥ २१ ॥ तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखं
स्याज्जन्मजन्मनि । पुराणं ये तु संपूज्य तांबूलाद्यैरुपायनैः २२
शृण्वन्ति च कथां भक्त्या दरिद्राः स्युर्न पापिनः । कथायां कीर्त्य-
मानायां ये गच्छन्त्यन्यतो नराः ॥ २३ ॥ भोगान्तरे मणश्यन्ति
तेषां दाराश्च सम्पदः । सोऽणीपमस्तका ये च कथां शृण्वन्ति

पतिता स्त्री व्रात्य मनुष्य ब्राह्मणद्वेषी पुरुष और वेदवाह्य पुरुषों
से सम्भाषण न करे, कथाव्रती पुरुष सत्य शौच दया मौन
सरलता और विनयको धारण करे और इसी प्रकार अपने मन
को उदार रखे श्रद्धावान् भक्तिमान् अन्य कार्योंमें लालसा न
रखने वाले और वाणीको नियममें रखने वाले पवित्र अव्यग्र
श्रोता पुण्यभागी होते हैं और जो अधम पुरुष अभक्तिसे पुण्य-
भागी कथाको सुनते हैं उनको पुण्यका कुछ फल नहीं मिलता है
और वे जन्म जन्मान्तरोंमें दुःख भोगते हैं और जो पुरुष
ताम्बूल आदिकी भेंट चढ़ा पुराणकी पूजा कर कथाको भक्ति
से सुनते हैं (वे दूसरे जन्ममें) पापी और दारिद्री नहीं होते हैं,
जो मनुष्य कथाके समय दूसरे स्थान पर चले जाते हैं (पूर्व-
जन्मके) भोग भोगके अनन्तर उन मनुष्योंकी स्त्रियाँ और
सम्पत्ति नष्ट होजाती है और जो पगड़ी पहिर कर कथा सुनते
हैं वे मनुष्याधम पापी पुरुष बगले होकर उत्पन्न होते हैं और
जो मनुष्य इस पवित्र कथाको सुनते समय ताम्बूलका भक्षण
करते हैं उन पुरुषोंको नरकमें यमदूत उनको विद्याका भक्षण

विनिवर्तने ॥ ११ ॥ यथासुखं व्यवहरेन्नित्यं विष्णुपरायणः ।
 शुचिः शुद्धमनास्तिष्ठन् पत्रावल्पा च भोजनम् ॥ १२ ॥ कथा-
 समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती । द्विदलं मधु तैलं च
 गरिष्ठान्नं तथैव च ॥ १३ ॥ भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथा-
 व्रती । वृंताकं च फलिंगं च दग्धमन्नं मसूरिकाम् ॥ १४ ॥ निष्पा-
 वानामिषाद्यं च वर्जयेच्च कथाव्रती । पलांडुं लशुनं हिंशुं मूलकं
 शृंजनं तथा ॥ १५ ॥ नालिकामूलं कृष्णांडं नैवाद्याच्च कथा-
 व्रती । कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च ॥ १६ ॥ दंभं
 मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती । वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोत्र-
 तिनां तथा ॥ १७ ॥ स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेच्च कथाव्रती ॥

सुखपूर्वक शयन करे, पापोंको दूर करनेके लिये (श्रोताको)
 नियम आदि करने चाहिये ॥ १०-११ ॥ विष्णुमें परायण
 रहने वाला मनुष्य जिसमें सुख मिले उस प्रकार वर्ताव करे,
 और पवित्र होकर शुद्ध मनसे पत्तल पर भोजन जीर्ण ॥ १२ ॥
 व्रतधारी मनुष्य कथा समाप्त होने पर भोजन करे, कथाका व्रत
 धारण करने वाला मनुष्य द्विदल (चना आदि) मधु तेल,
 गरिष्ठ अन्नको और भावदूषित अन्नको अर्थात् जिसको देखकर
 चित्तको विन लगे उस अन्नको और वासी अन्नको न खाय,
 कथाका व्रत धारण करने वाला मनुष्य बेंगन सिरस जला
 हुआ अन्न मसूर भेंददास और मांसमय भोजनको त्याग देय,
 और कथाका व्रत धारण करने वाला मनुष्य प्याज बहसन हींग
 गाजर नालिकामूल (शाकविशेष) और पेटेको न खाय और
 कथाव्रती मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह मद मान मत्सर और
 दंभको दूर करदे, और कथाव्रतीपुरुष वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु-
 धनी गोव्रती स्त्री राज्य और उदार पुरुषोंकी निन्दा करना
 त्याग दे, और कथाव्रती पुरुष रजस्वला स्त्री म्लेच्छकी स्त्री

रजस्वलां त्यजेन्म्लेच्छां पतितां व्रात्यकैः सह ॥ १८ ॥ द्विज-
द्विड्वेदयाह्वैश्च न वदेच्च कथाव्रती । सत्यं शौचं दयां मौनमार्जयं
विनयं तथा ॥ १९ ॥ उदारं मानसं तद्वत्कुर्यादेवं कथाव्रती ।
श्रद्धाभक्तिसमायुक्ता नान्यकार्येषु लालसाः ॥ २० ॥ वाग्यताः
शुचयोऽव्यग्राः श्रोतारः पुण्यभागिनः । अभक्त्या ये कथां पुण्यां
शृण्वन्ति मनुजाधमाः ॥ २१ ॥ तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखं
स्याज्जन्मजन्मनि । पुराणं ये तु संपूज्य ताम्बूलाद्यैरुपायनैः २२
शृण्वन्ति च कथां भक्त्या दरिद्राः स्युर्न पापिनः । कथायां कीर्त्य-
मानायां ये गच्छन्त्यन्यतेर नराः ॥ २३ ॥ भोगान्तरे मणश्यन्ति
तेषां दाराश्च सम्पदः । सोऽप्यणीपमस्तथा ये च कथां शृण्वन्ति

पतिता स्त्री व्रात्य मनुष्य ब्राह्मणद्वेषी पुरुष और वेदयाह्न पुरुषों
से सम्भाषण न करे, कथाव्रती पुरुष सत्य शौच दया मौन
सरलता और विनयको धारण करे और इसी प्रकार अपने मन
को उदार रखे श्रद्धावान् भक्तिमान् अन्य कार्योंमें लालसा न
रखने वाले और वाणीको नियममें रखने वाले पवित्र अव्यग्र
श्रोता पुण्यभागी होते हैं और जो अधम पुरुष अभक्तिसे पुण्य-
मयी कथाको सुनते हैं उनको पुण्यका कुछ फल नहीं मिलता है
और वे जन्म जन्मान्तरोंमें दुःख भोगते हैं और जो पुरुष
ताम्बूल आदिकी भेंट चढ़ा पुराणकी पूजा कर कथाको भक्ति
से सुनते हैं (वे दूसरे जन्ममें) पापी और दरिद्रों नहीं होते हैं,
जो मनुष्य कथाके समय दूसरे स्थान पर चले जाते हैं (पूर्व-
जन्मके) भोग भोगके अनन्तर उन मनुष्योंकी स्त्रियाँ और
सम्पत्ति नष्ट होजाती है और जो पगड़ी पहिर कर कथा सुनते
हैं वे मनुष्याधम पापी पुरुष बगले होकर उत्पन्न होते हैं और
जो मनुष्य इस पवित्र कथाको सुनते समय ताम्बूलका भक्षण
करते हैं उन पुरुषोंको नरकमें यमदूत उनकी विद्याका भक्षण

पावनीम् ॥ २४ ॥ ते बलांकाः प्रजायन्ते पापिनो मनुजाधमाः ।
 ताम्बूजं भक्षयन्तो ये कथां शृण्वन्ति पावनीम् ॥ २५ ॥ स्वविष्टां
 खादयन्त्येतान्नरके यमकिंकराः । नार्या रजस्वलायाश्च योनि-
 तुल्यं मुखं भवेत् ॥ २६ ॥ ये च तुंगासनारूढाः कथां शृण्वन्ति
 दांभिकाः । अक्षयान्नरकान् भुक्त्वा ते भवन्त्येव वायसाः २७
 ये च वीरासनारूढा ये च शय्यासनस्थिताः । शृण्वन्ति तत्क-
 थान्ते वै भवन्त्यर्जुनपादपाः ॥ २८ ॥ असंप्रणम्य शृण्वन्तो विप-
 ट्वा भवन्ति ते । तथा शयानाः शृण्वन्तो भवन्त्याजगरा नराः २९
 यः शृणोति कथां बक्रः समानासनगास्थितः । गुरुतरुपसमं पापं
 संप्राप्य नरकं व्रजेत् ॥ ३० ॥ ये निन्दन्ति पुराणज्ञान् कथां वा
 पापहारिणीम् । ते वै जन्मशतं मर्त्याः शुनकाः सम्भवन्ति च ३१
 कथार्या वर्तमानार्या ये वदन्ति दुरुत्तरम् । ते गर्दभाः प्रजायन्ते

कराते हैं रजस्वला स्त्रीका मुख योनिकी समान (अपवित्र)
 होता है (अतः कथाके समय उसका दर्शन न करना चाहिये)
 और जो दांभिक पुरुष ऊँचे आसन पर बैठ कर कथाको सुनते
 हैं, वे पुरुष अक्षय नरकोंको भोगनेके अनन्तर कैए होकर
 उत्पन्न होते हैं ॥ १३-२७ ॥ जो पुरुष वीरासनसे बैठ कर
 और खाट तथा शय्या पर बैठकर कथाको सुनाते हैं वे पुरुष
 अर्जुनहराका पैड़ बन कर उत्पन्न होते हैं ॥ २८ ॥ जो पुरुष
 (कथावाचकको) प्रणाम न कर कथा सुनने लगते हैं वे पुरुष
 विपट्ट होकर उत्पन्न होते हैं और जो पुरुष लोटे २ कथाको
 सुनते हैं, वे पुरुष अजगर होते हैं ॥ २९ ॥ और जो कुटिल पुरुष
 (वक्ताके आसनकी) समान आसन पर बैठकर कथाको सुनता है,
 वह पुरुष गुरुवतीगामीकी समान पापकोपाकर नरकमें पड़ता है ३०
 जो पुरुष पुराण वाचने वालोंकी अथवा पापहारिणी कथाकी
 निन्दा करते हैं वे मनुष्य सौ जन्म तक कुत्ते होते हैं ॥ ३१ ॥ जो

कुकलासास्ततः परम् ॥३२॥ कदाचिदपि ये पुण्यां न शृण्वन्ति
 कथां नराः । ते भुक्त्वा नरकान् घोरान् भवन्ति वनशुकराः ३३
 कथायां कीर्त्यमानायां विघ्नं कुर्वन्ति ये शठाः । कोट्यब्दान्-
 रकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसूकराः ॥३४॥ मध्ये वार्तां न कुर्वीत
 चेत् कुर्यान्निरयं व्रजेन । कथायां श्रयमाणायां न कुर्याच्छिशु-
 लालनम् ॥ ३५ ॥ नर्मवादान् वदेन्नैव स्त्रिया संभाषणं तथा ।
 न कर्तव्यं प्रयत्नेन कथाविच्छेदकारकम् ॥३६॥ विच्छेदेन कथा-
 यास्तु ब्रह्महत्यासमं त्वयः । प्राप्नोति मुनिशार्दूल कथाविच्छेदकः
 पुमान् ॥ ३७ ॥ न कुर्यात्तु कथामध्ये त्वन्यवार्ताः प्रयत्नतः ।
 नारी वा पुरुषो वापि कुर्यान्निरयमाप्नुयात् ॥ ३८ ॥ इतिहासं
 वदाम्यत्र शृणुष्वेकं हि मानद । यं श्रुत्वा न वदेद्वार्तां कथामध्ये

पुरुष कथाके मध्यमें दुरुत्तर बात कहते हैं वे पुरुष गधे होते हैं
 और फिर गिरघट होते हैं ॥ ३२ ॥ और जो पुरुष पुण्यमयी
 कथाको कभी भी नहीं सुनते हैं वे पुरुष घोर नरकोंमें पड़ कर
 अन्तमें जंगली सूअर होते हैं ॥ ३३ ॥ जो पुरुष कथा कहते
 समय विघ्न करते हैं, वे पुरुष करोड़ों वर्षों तक नरकको भोग
 कर अन्तमें ग्रामके सूकर होकर उत्पन्न होते हैं ॥ ३४ ॥ कथाके
 बीचमें वानचीत न करना चाहिये, पुरुष यदि बात चीत करता
 है तो नरकमें पड़ता है और कथाको सुनते समय पुरुष बालकोंका
 लालन न करे ॥ ३५ ॥ (कथाके समय) कथामें विघ्न डालने
 वाली कामकैलिकी बातें न करे और स्त्रियोंसे सम्भाषण भी न
 करे ३६ हे मुनिशार्दूल जो पुरुष कथामें विच्छेद (विघ्न) डालता
 है उसको कथामें विच्छेद डालनेसे ब्रह्महत्याकी समान पातक
 लगता है ३७ कथाके समय और वार्ताको प्रयत्न करके न करे
 नारी हो चाहे पुरुष हो ऐसा करनेसे उसको नरकमें गिरना
 पड़ता है ॥३८॥ हे मानद ! इस विषयमें मैं आपसे एक इतिहास

कदाचन ॥ ३६ ॥ जनस्थाने पुरा कथिह् ब्राह्मणो वेदपारगः ।
 धर्मशास्त्रेऽतिपुणः सदाचारपरायणः ॥ ४० ॥ गंगास्नानं
 विनायादौ कृत्वा मध्यान्हिकं तथा । कृत्वा देवार्चनं चैव श्रवणे
 तत्परोऽभवत् ॥ ४१ ॥ तस्य भार्यातिदुष्टा च कर्कशा कलहमिया ।
 असत्यात्पापनिपुणा परद्वेषपरायणा ॥ ४२ ॥ कृत्वा चक्रे धन-
 स्यापि संग्रहं पापनिश्चया । दधिदुग्धं समानीय शर्करां शुद्धमेव
 च ॥ ४३ ॥ घृतं च नवनीतं च स्वयमानीय सर्वदा । एकान्ते
 भक्षणं चक्रे भर्तृर्यन्नं प्रशुष्करम् ॥ ४४ ॥ दूरग्रहा दुष्टमनाः
 पतिनिंदापरायणा । बहुपापमकर्त्री च परवेशमोपवेशिनी ॥ ४५ ॥
 सुभाषणं वदेन्नैव दुष्टाक्षेपविधायिनी । पंक्तिभेदं प्रकुर्वाणा सदा
 निष्ठुरभाषिणी ॥ ४६ ॥ अतिथौ च सदा वैरकारिणी धर्म-

कहता हूँ, उसको सुन कर कथाके मध्यमें कुछ बात न कहनी
 चाहिये ३६ एक समय जनस्थानमें धर्मशास्त्रमें निपुण सदाचार-
 परायण एक वेदपारगामी ब्राह्मण रहता था ॥ ४० ॥ वह
 विप्र पहिले गङ्गास्नान कर मध्यान्हकी क्रिया करके और
 देवताओंकी पूजा करके कथा सुनने लगा ॥ ४१ ॥
 परन्तु उसकी भार्या अति दुष्टा थी, कर्कशा थी, कलहमिय थी,
 असत्य भाषण करने वाली थी और दूसरोंसे द्वेष करनेमें परा-
 यण रहती थी फिर उस पापमति वालीने धनका संग्रह करना
 आरम्भ कर दिया, यह स्त्री दूध दही शर्करा घृत और मक्खन
 लाकर एकान्तमें भक्षण कर लेती थी और भर्ताको सूखा अन्न
 दे देती थी ॥ ४३-४४ ॥ वह घरसे दूर रहती थी, उसका मन
 दूषित रहता था वह पतिकी निन्दा करनेमें परायण रहती थी,
 वह अनेक पापकर्म करती थी और दूसरोंके घरमें बैठी रहती
 थी ॥ ४५ ॥ वह अच्छी तरहसे तो बोलती ही नहीं थी और
 (दूसरों पर) दूषित आक्षेप करती रहती थी, वह पंक्तिमें भेद

नाशिनी । सज्जनोऽपि गुणी सौम्यस्तस्या भर्ता सुपूजितः ४७
 यदा भर्ता पुरोणस्य श्रवणार्थं हि संस्थितः । मृत्यहं तत्र गत्वा
 तु तस्य निन्दां चकार ह ॥ ४८ ॥ संन्यासिवत् कथं तत्र श्रवणे
 व्यासवत् कृतम् । समुत्पन्ननिरुद्योग किं कर्तव्यं मया वद ४९
 शिशवो मां पीडयन्ति भक्षणार्थं दिने दिने । किं तेषां च प्रक-
 र्तव्यं भक्षणार्थं मया वद ॥ ५० ॥ नास्त्यैवान्नां गृहे किञ्चिद्द्रव्यं
 वाप्यथवा धनम् । किं मया च प्रकर्तव्यं कुत्र गन्तव्यमेव च ५१
 कथं विलिखितं दिष्टं धात्रा पापेन मां पुरा । मूर्खश्चालससंयुक्तो
 दरिद्रो निष्ठुरस्तथा ॥५२॥ स्नेहहीनः कुटुंबे च कथायाः श्रवणे
 रतः । एतादृशो पतिर्महं धात्रा दत्तो दुरात्मना ॥५३॥ पृथिव्यां
 दुर्भगैकाहं दरिद्रगृहमागता । उदरापूर्तिमात्रं हि नान्नं मे भक्षितं

डालदेती थी और सबसे कठोर भाषण करती रहती रहती थी ४६
 और वह धर्मनाशिनी स्त्री अतिथियोंसे सदा बैर करा रहती थी,
 जब उसका पूजनीय सज्जन सौम्य भर्ता पुराणको सुनने
 के लिये बैठ गया, तब वह प्रतिदिन तहाँ जाकर उसकी निन्दा
 करने लगी ॥ ४७ ॥ ॥ ४८ ॥ कि-हे निरुद्योग ! तुम यहाँ
 संन्यासीकी समान कथा सुन रहे हो और व्यासजीसे बने बैठे
 हो, परन्तु हे निरुद्योग ! अब मैं क्या करूँ ॥ ४९ ॥ मुझे प्रति-
 दिन बच्चे खानेके लिये पीड़ित करते रहते हैं उनके खिलानेका मैं
 क्या प्रबन्ध करूँ, यह मुझे बताओ ॥ ५० ॥ मेरे घरमें न अन्न
 है न कुछ कपड़ा है और न धन ही है, मैं कहाँ जाऊँ और क्या
 करूँ ॥ ५१ ॥ (हाय !) पापी विधातने (पहिले) मेरे भाग्य
 में क्या लिख दिया, दुरात्मा विधाताने मुझै ऐसा स्वामी दिया
 है जो मूर्ख आलसी दरिद्र और निष्ठुर है और कुटुम्बसे कुछ भी
 स्नेह न करके कथा सुननेके लिये बैठ गया है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥
 पृथ्वीमें मैं (एक) बड़ी दुर्भाग्यवती हूँ, मुझै दरिद्रके घरमें आना

कदा ॥५४॥ सौभाग्यास्ता स्त्रियो लोके यासामुद्योगशालिनः ।
 पतयो धनधान्यादिसमृद्धिपरिशोभिताः ॥ ५५ ॥ ते वै स्त्रीणां
 वाक्यकराः शिशुपालनतत्पराः । नित्यं गृहेषु तिष्ठन्ति स्त्रीणां
 सन्तोषकारकाः ॥ ५६ ॥ सद्गन्भक्षणात् पुष्टा भार्याज्ञापरिपा-
 लकाः । व्यवसायं च भार्याणां कुर्वन्ति बुद्धिशालिनः ॥ ५७ ॥
 अयं मूर्खश्च जडधीरुपेक्षां कुरुते गृहे । अथ तैर्गं गृहे नास्ति
 इन्धनं लवणं तथा ॥ ५८ ॥ शाकञ्च मम नास्त्येव धान्यलेशो
 न मदृगृहे । किं मया तु प्रकर्तव्यं पतिरेतादृशो मम ॥ ५९ ॥
 कथायां श्रूयमाणायाम् पत्या सन्मार्गमूर्तिना । धान्यादौ विद्यमा-
 नेऽपि मिथ्याभाषणतत्परा ॥६०॥ कथाविघ्नं चकारासौ कर्कशा

पड़ा है, कभी मैंने पेट भर अन्न नहीं खाया ॥ ५४ ॥ संसारमें
 वेही स्त्रियें सौभाग्यवती हैं जिनके पति उद्योगी और धन धान्य
 से सम्पन्न हैं ॥ ५५ ॥ वे अपनी स्त्रियोंके कहनेको करते हैं
 और अपने बालबच्चोंका पालन करनेमें तत्पर रहते हैं वे घरमें
 स्त्रियोंको सदा सन्तोष देते रहते हैं ॥ ५६ ॥ वे अच्छे २ अन्न
 को खानेसे पुष्ट रहते हैं और अपनी स्त्रियोंकी आज्ञा पालन
 करनेमें तत्पर रहते हैं और वे बुद्धिमान् पुरुष स्त्रियोंके लिये ही
 व्यवसाय करते हैं ॥ ५७ ॥ और मेरा तो यह मूर्ख जडबुद्धि
 पति घरकी ओरसे बड़ा लापरवाह रहता है, आज तो मेरे घर
 में तेल भी नहीं है ईंधन भी नहीं है और नमक भी नहीं है ५८
 और मेरे घरमें शाक (तरकारी) भी नहीं है और मेरे घरमें
 लेशमात्र धान्य भी नहीं है, (हायरे,) मेरा पति ऐसा है अब
 मैं क्या करूँ ॥ ५९ ॥ उसके घरमें धन धान्य आदि सब सामग्री
 विद्यमान थी तब भी वह मिथ्याभाषणमें तत्पर रहने वाली कर्कशा
 स्त्री सन्मार्गकी मूर्ति अपने पतिके कथा सुननेमें विघ्न डाला
 करती थी, समय आने पर वह दूषित मन वाली स्त्री मर

सा दिने दिने । ततः कालेन मरणं प्राप्ता सा दुष्टमानसा । ६१ ।
यमदूर्तस्तु बद्ध्वा सा नीता च यमपन्दिरे । ततो यमाज्ञया वैस्तु
नरके पातिता चिरम् ॥ ६२ ॥ पश्चात् सा राज्ञसी जाता भैरवे
जलवर्जिते । अरण्ये लुत्तृपायुक्ता पूर्वपापभावतः ॥ ६३ ॥
तस्माद्विघ्नं न कर्तव्यं भार्यया पुरुषेण वा । श्रीहरेः सत्कथायास्तु
तत्र सत्यं वदान्यहम् ॥ ६४ ॥ मृगालिपहिपहंसवकस्वभावा
मार्जारकाककृकडुजलौकतुल्याः । सच्छिद्रकुम्भजलसिन्धुशिलो-
पमाश्च तेऽश्रावकाश्च सुचतुर्दशधा भवन्ति ॥ ६५ ॥ दरिद्रश्च क्षयी
रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् । अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयात्
स कथामिमाम् ॥ ६६ ॥ अपुण्या काकवन्ध्या च बन्ध्या धा च
मृतार्भका । स्रवद्गर्भा च या नासी तया श्राव्या प्रयत्नतः । ६७ ।

गई ॥ ६० ॥ ६१ ॥ उस समय यमदूत उसको बंधनमें बाँधकर
यमलोकको ले गए, फिर यमराजकी आज्ञासे यमदूर्तने उसको
चिरकालके लिये नरकमें डाल दिया ॥ ६२ ॥ फिर वह स्त्री
अपने पूर्वपापके कारण जलशून्य भयंकर वनमें प्यास और लुधा
से पीड़ित राज्ञसी होकर उत्पन्न हुई ॥ ६३ ॥ इसलिये श्रीहरिकी
कथामें पतिको अथवा पत्नीको विघ्न नहीं डालना चाहिये,
यह बात मैं तुम्हसे सत्य कहता हूँ ॥ ६४ ॥ अश्रावक (कथामें
विघ्न करने वाले पुष्प) मृग भौरे भँसे हंस और बगलोरी समान
स्वभाव वाले मार्जार काक भेड़िया कंक जोर खेद वाले घड़े
सिन्धु और शिलाकी समान चौदह प्रकारके होते हैं ॥ ६५ ॥
दरिद्रीको, क्षयरोगीको, निर्भाग्यको, पापकर्मको, सन्तान-
रहितको और मोक्षाभिलाषी पुरुषको इस कथाका श्रवण करना
चाहिये ॥ ६६ ॥ अपुण्या काकवन्ध्या मृतार्भका (जिसके
घच्चे मर जाते हों) और स्रवद्गर्भा स्त्रीको प्रयत्न करके यह
कथा सुनवानी चाहिये ॥ ६७ ॥ प्राणी इस हरिकथाको सुन कर

सुपुत्रं लभते राजन् द्यासस्य वचनं यथा । सर्वान् कामानवाप्नोति
कथां श्रुत्वा हरेरिमाम् ॥ ६८ ॥

इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये श्रवणादिविधि-
कथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

वैशम्पायन उवाच । एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत् ।
तद्दुद्यापनं कार्यं भक्तिमद्भिः फलार्थिभिः ॥ १ ॥ अकिञ्चनेषु
भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः।श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामाः विष्णवा
यनः ॥ २ ॥ एवं नवाहयज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा । पुस्त-
कम्य च वक्तुश्च पूजा कार्यानिभक्तितः ॥ ३ ॥ प्रसादतुलसी-
मान्ताः श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम् मृदंगनाललसितं कीर्तनं कीर्त्येतां
ततः ॥४॥ जयशब्दो नमःशब्दः शंखशब्दश्च गीयताम् । विभेभ्यो
याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् ॥ ५ ॥ श्रवणान्ते हरैर्मूर्तिः

व्यासजीके वचनानुसार सुपुत्रको और सब कामोंको पाना है ६८
चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४ ॥

वैशम्पायनने कहा कि-इस प्रकार व्रतकी विधिको करके
उद्यापन करे, फल चाहने वाले भक्तिमान् पुरुषोंको इसी प्रकार
उद्यापन भी करना चाहिये ॥१॥ अकिञ्चन भक्तोंके लिये उद्या-
पनका आग्रह (वन्धन) नहीं है, वे सुननेसे ही पवित्र होजाते
हैं, क्योंकि-वे निष्काम विष्णुभक्त होते हैं ॥ २ ॥ इस प्रकार
इस नवाहयज्ञके समाप्त होने पर श्रोतागणोंको कथावाचककी
और पुस्तककी प्रयत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ फिर
श्रोताओंको प्रसाद देकर तुलसीकी माला देनी चाहिये तब मृदंग
और तालसे कीर्तन करना चाहिये ॥४॥ उस समय जयजयका
शब्द और नमस्कारका शब्द करना चाहिये और शंख बजाना
चाहिये और विभोंको तथा याचकोंको धन देना चाहिये ॥ ५ ॥
श्रवणके अन्तमें लक्ष्मीसहित श्रीहरिकी सुवर्णकी एक पलकी मूर्ति

सश्रीरुस्य प्रदीयते । सुवर्णस्य कृता सम्यक् लक्ष्म्यंका पलमा-
 नतः ॥ ६ ॥ समाप्तौ विधिवद्वस्त्रं ज्ञौमं दद्यान्व वाचके । विशो-
 पोयं सगृहिष्टो मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ ७ ॥ समाप्त्य सर्वं प्रयतः
 संहिताशास्त्रज्ञोविदः । शुभे दिने निवेशयाथ ज्ञौमवस्त्राभिसंयुतः ८
 शुक्लांबरधरस्तत्र, शुचिर्भूत्वा स्वलंकृतः । अर्चयेत्तु यथान्यायं
 यन्धमःख्यैः पृथक् पृथक् ॥ ९ ॥ संहितापुस्तकं तत्र प्रयतः सुस-
 माहितः । ऋष्यैर्भक्ष्यभोज्यैश्च कौतुकैर्विधिभिः शुभैः ॥ १० ॥
 हिरण्यमन्यद्द्रव्यं च दक्षिणां तत्र दापयेत् । ये श्रावयन्ति मनुजान्
 पुण्यां पौराणिकी कथाम् ॥ ११ ॥ कल्पकोटिशतं सार्धं यान्ति
 ते ब्रह्मणः पदे । आसनाय प्रयच्छन्ति पुराणज्ञस्य ये नराः ॥ १२ ॥
 कम्बलाजिनवासांसि यञ्चाफलकमेव च । स्वर्गलोकं समासाद्य
 भुक्त्वा भोगान् यथेप्सितान् ॥ १३ ॥ स्थित्वा ब्रह्मादिलोनेषु
 देवी चाहिये, उस मूर्तिमें लक्ष्मीकी गोदमें श्रीहरि शयन करते
 हों ॥ ६ ॥ तत्त्वदर्शी मुनियोंने यह विशेष विधि रही है, कि-
 कथाकी समाप्तमें वाचकको शास्त्रानुसार रेशमी वस्त्र देय ॥ ७ ॥
 (हरिवंश) संहितामें चतुर मनुष्य नियममें रहकर सब कथाको
 पूर्ण करनेके अनन्तर किसी शुभ दिनमें पवित्र हो रेशमी वस्त्र
 और स्वेत वस्त्र धारण कर अलंकृत हो (पुस्तकको) शास्त्रा-
 नुसार गन्ध और माल्योंसे अलग २ पूजन करके समाहित चित्त
 हो गुल्लगुले भक्षण भोज्य और नाना प्रकारके शुभ कौतुकोंसे
 पुस्तककी पूजा करे ॥ ८ ॥ १० ॥ फिर सुवर्णकी तथा और
 द्रव्यकी दक्षिणा दिलवावे, जो मनुष्य इस पुराणकी पुण्यमयी
 कथाको दूसरे मनुष्योंको सुनवाते हैं ॥ १० ॥ वे डेढ़ करोड़ वर्ष
 तक ब्रह्मलोकमें रहते हैं, जो पुरुष पुराणके ज्ञाताको बैठनेके
 लिये कम्बल गृगचर्म वस्त्र और फलक (चर्मविशेष) देते हैं वे
 पुरुष स्वर्गलोकमें जाकर यथेष्ट भोगोंको भोग कर ब्रह्मलोक आदि

पदं यान्ति निरामयम् । पुराणस्य मयञ्छन्ति ये सौत्रं वसनं
 नवम् ॥ १४ ॥ भागिनो ज्ञानसंपन्नास्ते भवन्ति भवे भवे । ये
 महापातकैर्युक्ता उपपातकिनश्च ये ॥ १५ ॥ पुराणश्रवणादेव ते
 यान्ति परमं पदम् । हरिवंशं लिखित्वा यो वाचकाप प्रदापयेत् १६
 यत्फलं भूमिदानस्य तत्फलं भूयते हि सः । राजसूयेन तेनेष्टम-
 श्वमेधेन वै नृप ॥ १७ ॥ दत्तानि सर्वदानानि हरिवंशे श्रुते-
 ऽखिले । राजसूयाश्वमेधाया यज्ञाश्चैव युगे युगे ॥ १८ ॥ श्रवणं
 हरिवंशस्य कलौ यज्ञफलमदम् । श्रद्धावानास्तिको दान्तो हरि-
 वंशं यदारभेत् ॥ १९ ॥ पातकानि प्रकुरन्ते मृत्यूद्धान् जनयन्ति
 च । समारभ्य नयेत् पारं हरिवंशं य आदितः ॥ २० ॥ स्पर्श-
 नाद्दर्शनात्तस्य विष्णुर्दृष्टो भवेन्नृप । जन्मत्रयस्य निकषं पात-

में निवास करते हुए निरामय पदको प्राप्त होजाते हैं जो पुरुष
 पुराणके लिये नया सूत्र और नवीन वसना देते हैं वे पुरुष मृत्येक
 जन्ममें ज्ञानवान् होते हैं, महापातक और उपपातकोंसे युक्त पुरुष
 भी पुराणके श्रवणपात्रसे परमपदको पाते हैं, जो पुरुष हरिवंश
 को लिखवा कर वाचकको दिलवाता है वह पुरुष भूमिदानके
 फलको पाता है, हे नृप ! जिसने सम्पूर्ण हरिवंश सुन लिया उसने
 मानो मव दान दे लिये और उसने राजसूय और अश्वमेध
 यज्ञ भी कर लिया, और २ युगोंमें राजसूय और अश्वमेध, आदि
 यज्ञका फल देते है) ॥ ११-१८ ॥ परन्तु कलियुगमें हरिवंश
 ही यज्ञका फल देने वाला है, श्रद्धावान् जन्ममसम्पन्न आस्तिक-
 पुरुष जिस समय हरिवंशका आरम्भ करता है ॥ १९ ॥ उस
 समय उसके पातक कोंपने लगते है और विद्वान् ज्ञानने लगते हैं,
 जो पुरुष हरिवंशको आदितसे पार (अन्त) तक सुन लेवे नृप !
 उसका दर्शन करनेसे और उसका स्पर्श करनेसे विष्णुका दर्शन
 होता है अर्थात् विष्णुके दर्शनकी समान फल मिलता है, और

कस्य क्षयो भ्रुवम् ॥ २१ ॥ फलाभिश्च समाप्ती च हरिवंशस्य
 बुध्यते । भारतश्रोतुर्विज्ञेयं पूर्वं सुकृतिलक्षणम् ॥ २२ ॥ ये च संजा-
 यते बुद्धिर्हरिवंशावधारणे । सर्वाणि च पुराणानि वेदोश्च स्मृत-
 यस्तथाः ॥ २३ ॥ हरिवंशे निवद्धार्था व्यासेन च महर्षिणा
 श्रुतिस्मृतिपुराणानां निन्दकेभ्यः कथञ्चन ॥ २४ ॥ पापिभ्यश्च
 महाराज श्रावयेन्नैव वाचकः । श्रुत्वा तुष्टेन मनसा वाचकं परि-
 पूजयेत् ॥ २५ ॥ दान्तं यशस्विनं कांतं शुचिस्पष्टाक्षरं ब्रुवंत् ।
 त्रिशुक्लपांचारपरमक्रोधनमवादिननम् । २६ ॥ ग्रामं दद्यात् सुव-
 सितं कुण्डलोष्णीपमालिकाम् । पादुकोपानहौ छत्रं सवितानं
 मसूरिकाम् ॥ २७ ॥ एवं कृत्वा तु विधिवद्वाचकाय प्रदापयेत् ।

उसके तीन जन्मोंके पापोंकी कसौटी होकर उसके पाप (हरि-
 वंशकी समाप्ति होने पर) नष्ट होजाते हैं ॥ २० ॥ २१ ॥ हरि-
 वंशकी समाप्ति होनेसे प्रतीत होता है, कि इसके (पूर्वजन्मके
 पुण्योंका) फल (बहुत अच्छा है) महाभारतको सुनने वालेके
 पूर्व पुण्य समझने चाहिये, यदि हरिवंशके सुननेमें उसकी बुद्धि
 लग जाय, महर्षि व्यासजीने हरिवंशपर्वमें सम्पूर्ण पुराण
 स्मृति और वेदोंका आशय भर दिया है, हे महाराज ! वाचकको
 चाहिये श्रुति और स्मृतिकी निन्दा करने वाले पापियोंको इसकी
 कथा कभी न सुनावे, श्रोता सन्तुष्ट मनसे कथाको सुन कर
 वाचककी पूजा करे ॥ २२-२५ ॥ फिर दाता स्पष्ट अक्षरोंको
 बोल्न कर चतुर यशस्वी मनसा वाचा और कर्णणा पवित्र आचार
 में परायण रहने वाले अक्रोधी और मौन रहने वाले (अधिक न
 बोलनेवाले) वाचकको ग्राम देय फिर गंधमें बसाया (वस्त्र) कुण्डल
 पंगड़ी माला पादुका उपानत् (जूते) छत्र चन्दोंवा मसूर इन
 सबको इकट्ठा करके कथावाचकको शास्त्रविधिसे दान देदेय
 फिर दान (सवारी) वर्ष (बरसाने वाला पदार्थ) गुलाबपाश

यानं वर्षं हयगर्जा क्षौर्म मणिपथासनम् ॥ २८ ॥ पण्डभांडा-
ग्निताम्रस्य ताम्रस्यैर्वायुजाजिनम् । सकुटुम्बं च सस्त्रीकं वाचकं
परया मुदा ॥ २९ ॥ विभूपणैरलंकृत्य परिधाय्य सुवाससी ।
कृष्णद्रुपायनं ध्यायन्नमस्कुर्वीत भावतः । वित्तशाठ्यं न कर्तव्यं
हरिवंशफलेषुभिः ॥ ३० ॥ भदेवा गाँः शुभा चैका सवत्सा
हेमपूरिता । पलेन च पलायनं तदर्धेनाथवा पुनः ॥ ३१ ॥ वाचकं
येन केनापि तोषयेत् सुसमाहितः । तुष्टे तु वाचके राजंस्तुष्टा स्युः
सर्वदेवताः ॥ ३२ ॥ तुष्टेषु सर्वदेवेषु कार्यं तु सफलं भवेत् ।
हरिवंशे समाप्ते तु वाचके परिपूजिते ॥ ३३ ॥ ऋणत्रयेण मुक्ताः
स्युस्ते नरा जनमेजय । मोदन्ते पितरस्तेषां लोकान् प्राप्यान्नया-
न्नृप ॥ ३४ ॥ हरिवंशस्य प्रारम्भे समाप्तौ चैव तैः सह । सर्वान्

आदि) हाथी घोड़ा रेशमी वस्त्र मणिगोसे जड़ा हुआ आसन
ताम्रवेका पण्डभाण्डाग्निताम्र (पात्रविशेष) कमल मृगचर्म आदि
वाचकको देकर, श्रोता परमहर्षमें भर वाचककी स्त्री और कुटुम्ब
को तथा वाचकको दो वस्त्र पहिग विभूषणोंसे विभूषित कर
प्रेममें भर कृष्णद्रुपायनका ध्यान धरता हुआ वाचकको नम-
स्कार करे, हरिवंशके फलको सुनने वालोंको धनका लालच न
करना चाहिये ॥ २९-३० ॥ और बद्धे सहित सुवर्णकी एक
गाँ बना कर देनी चाहिये, (उमको) एक पल आधा पल अथवा
चाँथाई पल (की बनवाकर) जिस प्रकार होसके वाचकको
प्रसन्न करे, हे राजन् ! वाचकके प्रमन्न होनेपर सब देवता
प्रसन्न होजाते हैं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ और सब देवताओंके प्रसन्न
होनेपर ही कार्य सफल होता है, हे जनमेजय ! हरिवंशके समाप्त
होने पर और कथावाचकके सन्तुष्ट होने पर (ऐसा करने वाले
मनुष्य देवद्वेषण पितृद्वेषण और ऋषिद्वेषण इन) तीन ऋणोंसे
मुक्त होजाते हैं और हे राजन् ! उनके पितर अन्नय लोगोंको

कामानवाप्नोति विवाप्मा जायते नरः ॥ ३५ ॥ एवं कृते विधाने
तु मन्त्रां प्राप्नोति मानवः । धनमारोग्यमायुष्यं सौभाग्यं गुण-
गुणगौरवम् ३६ प्राप्नोति मनुजः सम्यङ् नान्न कार्या विचरणा ३७
इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये श्रवणादिविधि-

कथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

जनमेजय उवाच । प्रारम्भस्तु कथं कार्यः कथं पूजाविधिः
स्मृतः । कथं विसर्जयेद्यासं कथं सन्ध्यफलं लभेत् ॥ १ ॥ एत-
त्सर्वं समाचक्ष्व विस्तरान्मुनिसत्तम । वैशंपायन उवाच । शृणु
राजन् यथा बन्ध्या सन्ततिं लभते ध्रुवम् ॥ २ ॥ वैशाखे माघ
उज्ज्वे च अन्यस्मिन् शुभमासिके । शुक्लपक्षे तिथौ पूर्णानन्दा-
भद्राजयासु च ॥ ३ ॥ चारे गुरौ तथा शुके चन्द्रे चन्द्रात्मजे तथा ।

पाकर आनन्द करते हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ हरिवंशके आरम्भमें
और समाप्तमें मनुष्य और उसके पितर सब कामनाओंको
पाते हैं और वह मनुष्य निष्पाप होजाता है ॥ ३५ ॥ इस
प्रकार विधान करनेसे मनुष्यकी पूजा होती है और वह मनुष्य
धन आरोग्य आयु सौभाग्य और गुणगौरवको पाता है इसमें
कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥

जनमेजयने वृत्ता, कि-हे मुनिसत्तम ! मनुष्य इसका किस
प्रकार आरंभ करे, इसकी पूजाकी विधि कैसी कही है और
थोता व्यासजीका विसर्जन किस प्रकार करे और (थोता) भली
प्रकार फल कैसे प्राप्त कर सकता है, यह आप मुझसे विस्तार-
पूर्वक कहिये, वैशम्पायनने कहा, कि-हे राजन् ! जिस प्रकार
बन्ध्या स्त्रीको पुत्र अवश्य मिलता है उसको तुम यथार्थ रीतिसे
सुनो ॥ १ ॥ २ ॥ बुद्धिमान् पुरुष वैशाख माघ कार्तिक अथवा
और किसी शुभ मासमें शुक्लपक्षमें, पूर्णा (पञ्चमी दशमी और
पूर्णिमा) नन्दा (प्रतिपदा, षष्ठी एकादशी) भद्रा (द्वितीयासप्तमी

नक्षत्रे श्रवणे हस्ते पुष्ये मूले पुनर्वसौ ॥४॥ वासवे तुहिनांशौ च
 पौष्णे च हयनारके । सौभाग्यादिषु योगेषु करणे विष्टिर्वाजिते ५
 श्रोतुश्चाथापि वक्तुरच चन्द्रे च बलशालिनि । पूर्वाह्णे चापि मध्यान्हे
 मारंभः क्रियते बुधैः ६ आदौ लम्बोदरः पूज्यः कलशस्तु ततः परम् ।
 श्रीखण्डागरुकूर्पूरकुंकुपामोदलेपनैः ॥७॥ पंकर्जेश्वंपंकरन्यैर्जाती-
 पुष्पैः सुगन्धिभिः । तुलसीविन्वथात्रीणां पत्रैरन्यैर्नवाङ्कुरैः ८
 धूपदीपैश्च विष्टिर्नारिकेलफलादिभिः । तांबूलैर्मुखवासैश्चाखं-
 डितैः शुक्रतंडुनैः ॥ ९ ॥ चामरैर्न्यजनैश्चैव घण्टावाद्यादिभि-
 स्तथा । मत्पटं पूजयेद्देवं यावद्द्रुग्रन्थः समाप्यते ॥ १० ॥ लक्षा-
 दिदोपरहिते वारे च शुभसंज्ञके । समर्पयेत् पुराणं तु ततः पूजां
 समाचरेत् ॥११॥ प्रारम्भे च यथा पूजा तथा कार्या निसर्जने ।

द्वादशी) अथवा अया (तृतीया अष्टमी त्रयोदशी) तिथिमें, गुरु शुक्र
 सोम अथवा बुधवारमें, श्रवण हस्त पुष्य मूल अथवा पुनर्वसु
 ज्येष्ठा मृगशिरा रेवती अथवा अश्विनी नक्षत्रमें, सौभाग्य आदि
 योगमें, विष्टि (भद्रा) वाजित करणमें, श्रोता और वक्ताके बलवान्
 चन्द्रमा होने पर पूर्वाह्ण अथवा मध्याह्णमें इसका आरंभ करते
 हैं ३-६ इसमें प्रथम गणेशजीकी पूजा करनी चाहिये फिर कलश
 प्रतिष्ठा करनी चाहिये, फिर जब तक ग्रन्थ समाप्त हो तब तक प्रति-
 दिन श्रीखण्ड अगर कपूर कुंकुम आदि सुगन्धित वस्तु कपल
 चम्पक और सुगन्धिन जातिपुष्पोंसे तुलसी विन्व और आमलेके
 पत्तोंसे और नये डगे हुए पत्तोंसे धूप दीप और नारियल आदिके
 फलोंसे ताम्बूल सुखको सुगन्धित करने वाली वस्तु और खण्डे
 रवेन चाबलोंसे तथा चामर न्यजन और घण्टोंके शब्दोंसे (पूजन
 करे) । ७-१० । लक्षा आदि दोपसे रहित शुभसंज्ञक वारमें
 पुराणमें अर्पण करके पूजा करे ११ प्रारम्भकी समान विस-
 र्जनमें भी चन्द्रन अगर कपूर कुंकुम और गन्ध आदिसे पूजा

चन्दनागरुकर्पूरकुङ्कुमैर्गन्धकादिभिः ॥ १२ ॥ गीतवादित्रनृत्यैश्च
 राजन् कार्यो महोत्सवः । ततः पुराणपूजायां यथा दानं तथा
 शृणु ॥ १३ ॥ अष्टादशशतं दानं पुराणाय समर्पयेत् । अभावे
 द्वादशशतं पूजा वै जनमेजय ॥ १४ ॥ तदभावेऽपि राजेन्द्र पद्-
 शतं परिकीर्तितम् । उत्तमं मध्यमं दानमधमं च प्रकीर्तितम् १५
 सप्तनीकं ततो व्यासं दुकूलैरशुकैर्नवैः । पूजयेत् सर्वभावेन स
 सम्पक् फलमश्नुते ॥ १६ ॥ परिधायानि देवानि कुण्डलानि
 शुभानि च । मुकुटाद्यैरलं कृत्य केयूरांगदधूपलैः ॥ १७ ॥ गावस्तु
 कपिला देयाः सवत्सा गर्भसंपुताः पानमश्वादिकं राजन् दासी-
 दासं समर्पयेत् ॥ १८ ॥ आसनं पुरुषव्याघ्र धूपदीपादिभाज-
 नम् । शय्यांतूलादिकं सर्वं सोपधानं सलङ्कुकम् ॥ १९ ॥ स्वाली-
 पीठादिकं राजञ्जलपात्रं तथैव च । अन्नं च बहु दातव्यं लवणं
 पूजा करनी चाहिये १२ और हे राजन्! गीत और वाजोंके घोष
 से महोत्सव कराना चाहिये, अब पुराणपूजाके लिये कैसा दान
 होना चाहिये उसको सुनो १३ पुराणके लिये अठारहसौ दान
 दे और हे जनमेजय ! इसके अभावमें द्वादश शतकी पूजा करे १४
 हे राजेन्द्र ! उसके अभावमें छः सौसे पूजा करना लिखा है
 (इस प्रकार) उत्तम मध्यम और अधम दान कहा है ॥ १५ ॥
 इसके उपरान्त जो दुपट्टे और नवीन वस्त्र देकर सप्तनीक व्यास
 की पूजा करता है उसको भली प्रकार फल मिलता है ॥ १६ ॥
 हे राजेन्द्र ! व्यासासन पर चौंटे हुए ब्राह्मणके लिये पहिरनेके
 वस्त्र, केयूर अद्भुत (वाजूवन्द) आदि आभूषणोंसे अलंकृत
 करके शुभ कुण्डल, और बड़ड़ेसहित गर्भिणी कपिला गी
 देनी चाहिये और हे राजन् ! घोड़ा आदि सवारी और दासी-
 दास देने चाहिये, और हे पुरुषव्याघ्र ! आसन धूप दीप पात्र
 शय्या रुई भरा तकिया, लङ्कू थाली चौकी, जलका पात्र,

जनमेजय ॥२०॥ घृततैलादिकं राजन् यावद्वर्षं समाप्यते । एतत्
 सर्वं द्विजेन्द्राय व्यासासनगताय च ॥२१॥ मनोभीष्टं वरं लब्ध्वा
 ततः कुर्यात् प्रदक्षिणाम् । पाण्डुं तेन राजेन्द्र द्विजेन्द्रं रुद्रजोषि-
 नम् ॥२२॥ वस्त्रादिभिरलंकृत्य मुद्रिकाभिस्तथैव च । नवीनं कम्बलं
 शुभ्रं ताम्रपात्रं तथैव च ॥ २३ ॥ द्विजं द्विजं समुद्दिश्य दातव्या
 दक्षिणा बहु । ततोऽभिपेकसंयुक्तं गुरुं चैव पुरोधसम् ॥ २४ ॥
 वस्त्रादिभिरलंकृत्य दक्षिणाभिश्च तोषयेत् । ततोऽन्यान् ब्राह्म-
 णान् सर्वान् दक्षिणाभिः समर्चयेत् ॥ २५ ॥ हवनं च तथा
 राजन् कर्तव्यं कर्म शान्तये । प्रतिश्लोकं च जुहुयाद्दशांशेनैव वा
 पुनः ॥२६॥ पायसं मधु सर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् । अथवा
 हवनं कुर्याद्गायत्र्या सुसमाहितः ॥ २७ ॥ तन्मयत्वात् पुराण-
 परमस्यास्य तत्त्वनः । होमाशक्तौ बुधो हेम दद्यात्तत्फलसिद्धये २८

नमक और बहुतसा अन्न घृत और तेल आदि ये सब जब तक
 वर्ष समाप्त हो तब तक (वाचकको टेने चाहिये १७-२१ फिर
 पाण्डुके अन्तमें अभीष्ट वर पाकर प्रदक्षिणा करे हे राजेन्द्र! फिर
 रुद्रका मन्त्र जपने वाले द्विजेन्द्रको वस्त्र आदिसे और मुद्रिका आदि
 से अलंकृत करे, फिर प्रत्येक ब्राह्मणके निमित्त नवीन कम्बल,
 शुभ्र ताम्रपात्र और बहुतसी दक्षिणा देनी चाहिये, फिर अपने
 पुरोहित गुरुका अभिपेक करके उनको वस्त्र आदि देकर और
 दक्षिणा देकर संयुक्त करे, फिर और सब ब्राह्मणोंको भी दक्षिणा
 देकर पूजा करे ॥ २२-२५ ॥ फिर हे राजन् ! कर्मकी शान्ति
 के लिये हवन करना चाहिये अथवा प्रति श्लोकके दशांशसे
 पायस मधु घी और तिलसे मिले हविसे होम करे, अथवा परम
 सावधान होकर गायत्रीसे हवन करे ॥ २६-२७ ॥
 क्योंकि-यह परम पुराण तत्त्वनः गायत्रीमय है, बुद्धिमान् पुरुष
 होमकी शक्ति न होने पर फलसिद्धिके लिये सुवर्णका दान

मानाद्धिनिरेधार्यं न्यूनताधिक्यताख्ययोः । दोषयोः प्रथमार्थं च
 पठेन्नामसहस्रकम् ॥ २९ ॥ तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मा-
 दधिकं यतः । भोजयेन्मिथुनान्येव चतुर्विंशतिरादरात् ॥ ३० ॥
 ततो गन्धैश्च माल्यैश्च स्वर्णांकृत्य द्विजोत्तमान् । तोषयेदक्षिणा-
 होमैर्धान्यै रत्नादिभिस्तथा ॥ ३१ ॥ भुक्तवत्सु च विप्रेषु यथा-
 बत् समयाचत । वाचकं भारतश्रेष्ठ भोजयित्वा स्वर्णांकृतम् ३२
 सपत्नीकं च सन्तोष्य वस्त्रालंकरणादिभिः । ब्राह्मणेषु प्रसन्नेषु
 प्रसन्नास्तस्य देवताः ॥ ३३ ॥ वाचकं परितुष्टे तु शुभा प्रीति-
 रनुत्तमा । दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वसिद्धये ॥ ३४ ॥ शक्तौ
 पलाययमितं स्वर्णसिंहं विधाय च । तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य
 लिखितं ललिताक्षरम् ॥ ३५ ॥ संपूज्यावाहनाद्यैश्च उपचारैः

देय ॥ २८ ॥ अनेक प्रकारके दोषोंको दूर रखनेके लिये और
 न्यूनता तथा आधिक्य नामके दोषोंकी शान्तिके लिये (विष्णु)
 सहस्र नामका पाठ करे ॥ २९ ॥ ऐसा करनेसे जिससे अधिक
 और कोई नहीं है (ऐसा मनोरथ) सफल होजाता है फिर
 चौबीस जोड़ोंको (स्त्री पुरुषोंको) जिमावे, ॥ ३० ॥ फिर उन
 श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको गन्ध माला आदिसे अलंकृत करके उनके
 दक्षिणा होम धान्य और रत्न आदि देकर सन्तुष्ट करे
 ब्राह्मणोंके भोजन करने पर उनसे याचना करे, हे भारतश्रेष्ठ !
 भली प्रकार अलंकृत किये हुए वाचकको और उनकी पत्नीको
 भोजन करा कर और उनको वस्त्र और अलंकार आदिसे
 सन्तुष्ट करे क्योंकि—ब्राह्मणोंके प्रसन्न होने पर उस श्रोता
 के देवता प्रसन्न होजाते हैं ॥ ३१-३३ ॥ और वाचकके संतुष्ट
 होने पर उसके देवता परम प्रसन्न होते हैं श्रोता व्रत पूर्ण होने
 की सिद्धिके लिये सुवर्णधेनुका दान करे ३४ और शक्ति हो
 तो तीन पलाका सुवर्णका सिंह बना कर और उस पर ललित

जनमेजय ॥२०॥ घृततैलादिकं राजन् यावद्वर्षं समाप्यते । एतत्
 सर्वं द्विजेन्द्राय व्यासासनगताय च ॥२१॥ मनोभीष्टं वरं लब्ध्वा
 ततः कुर्यात् प्रदक्षिणाम् । पारणां तेन राजेन्द्र द्विजेन्द्रं रुद्रजोपि-
 नम् ॥२२॥ वस्त्रादिभिरलंकृत्य मुद्रिकाभिस्तथैव च । नवीनं कम्बलं
 शुभ्रं ताम्रपात्रं तथैव च ॥ २३ ॥ द्विजं द्विजं समुद्दिश्य दातव्या
 दक्षिणा बहु । ततोऽभिपेकसंयुक्तं गुरुं चैव पुरोधसम् ॥ २४ ॥
 वस्त्रादिभिरलंकृत्य दक्षिणाभिश्च तोषयेत् । ततोऽन्यान् ब्राह्म-
 णान् सर्वान् दक्षिणाभिः समर्चयेत् ॥ २५ ॥ इवनं च तथा
 राजन् कर्तव्यं कर्म शान्तये । प्रतिश्लोकं च जुहुयाद्दशांशेनैव वा
 पुनः ॥२६॥ पायसं मधु सर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् । अथवा
 इवनं कुर्याद्वायव्या सुसमाहितः ॥ २७ ॥ तन्मयत्वात् पुराणस्य
 परमस्यास्य तत्त्वतः । होमाशक्तौ बुधो होम दद्यात्तत्फलसिद्धये २८

नमक और बहुतसा अन्न घृत और तेल आदि ये सब जब तक
 वर्ष समाप्त हो तब तक (वाचकको देने चाहिये १७-२१ फिर
 पारणाके अन्तमें अभीष्ट वर पाकर प्रदक्षिणा करे हे राजेन्द्र! फिर
 रुद्रका मन्त्र जपने वाले द्विजेन्द्रको वस्त्र आदिसे और मुद्रिका आदि
 से अलंकृत करे, फिर प्रत्येक ब्राह्मणके निमित्त नवीन कम्बल,
 शुभ्र ताम्रपात्र और बहुतसी दक्षिणा देनी चाहिये, फिर अपने
 पुरोहित गुरुका अभिपेक करके उनको वस्त्र आदि देकर और
 दक्षिणा देकर संतुष्ट करे, फिर और सब ब्राह्मणोंको भी दक्षिणा
 देकर पूजा करे ॥ २२-२५ ॥ फिर हे राजन् ! कर्मकी शांति
 के लिये इवन करना चाहिये अथवा प्रति श्लोकके दशांशसे
 पायस मधु घी और तिलसे मिले हविसे होम करे, अथवा परम
 सावधान होकर गायत्रीसे इवन करे ॥ २६-२७ ॥
 क्योंकि-यह परम पुराण तत्त्वतः गायत्रीमय है, बुद्धिमान् पुरुष
 होमकी शक्ति न होने पर फलसिद्धिके लिये सुवर्णका दान

मानाङ्घ्रिनिरोधार्थं न्यूनताधिक्यताख्ययोः । दोषयोः प्रशमार्थं च
 पडेन्नामसहस्रकम् ॥ २६ ॥ तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मा-
 दधिकं यतः । भोजयेन्मिधुनान्येव चतुर्विंशतिरादरात् ॥ ३० ॥
 ततो गन्धैश्च माल्यैश्च स्वलांकृत्य द्विजोत्तमान् । तोषयेद्दक्षिणा-
 होमैर्धान्यै रत्नादिभिस्तथा ॥ ३१ ॥ भुक्तवत्सु च विमेषु यथा-
 वत् समयाचत । वाचकं भारतश्रेष्ठ भोजयित्वा स्वलांकृतम् ३२
 सपत्नीकं च सन्तोष्य वस्त्रालकरणादिभिः । ब्राह्मणेषु प्रसन्नेषु
 मसन्नास्तस्य देवताः ॥ ३३ ॥ वाचकं परितुष्टे तु शुभा मीति-
 रनुत्तमा । दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वसिद्धये ॥ ३४ ॥ शक्तौ
 पत्नयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च । तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य
 लिखितं ललिताक्षरम् ॥ ३५ ॥ संपूज्यावाहनाद्यैश्च उपचारैः

देय ॥ २८ ॥ अनेक प्रकारके दोषोंको दूर रखनेके लिये और
 न्यूनता तथा आधिक्य नामक दोषोंकी शान्तिके लिये (विष्णु)
 सहस्र नामका पाठ करे ॥ २६ ॥ ऐसा करनेसे जिससे अधिक
 और कोई नहीं है (ऐसा मनोरथ) सफल होजाता है फिर
 चौबीस जोड़ोंको (स्त्री पुरुषोंको) जिमावे, ॥ ३० ॥ फिर उन
 श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको गन्ध माला आदिसे अलंकृत करके उनको
 दक्षिणा होम धान्य और रत्न आदि देकर सन्तुष्ट करे
 ब्राह्मणोंके भोजन करने पर उनसे याचना करे, हे भारतश्रेष्ठ !
 भली प्रकार अलंकृत किये हुए वाचकको और उनकी पत्नीको
 भोजन करा कर और उनको वस्त्र और अलंकार आदिसे
 सन्तुष्ट करे क्योंकि-ब्राह्मणोंके प्रसन्न होने पर उस श्रोता
 के देवता प्रसन्न होजाते हैं ॥ ३१-३३ ॥ और वाचकके संतुष्ट
 होने पर उसके देवता परम प्रसन्न होते हैं श्रोता व्रत पूर्ण होने
 की सिद्धिके लिये सुवर्णधेनुका दान करे ३४ और शक्ति हो
 तो तीन पत्निका सुवर्णका सिंह बना कर और उस पर ललित

सदक्षिणैः । वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय महात्मने ॥ ३६ ॥
 आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्तः स्याद्भवन्धनैः । एवं कृतविधानेन
 सर्वपापनिवारणे ॥ ३७ ॥ फलदं स्वात् पुराणन्तु सर्वकामार्थ-
 सिद्धिदम् । अनेन विधिना राजन् यः पुराणं समापयेत् ॥ ३६ ॥
 तस्य स्त्री लभते गर्भं मासैकेन च भारत । अनेन विधिना राजन्
 व्यासं यस्तु समर्चयेत् ॥ ३६ ॥ पूजयेद्दानमानाभ्यां तस्य स्त्री
 गर्भिणी भवेत् । यन्मया त्रिविधं प्रोक्तं भक्तिपूजादिकं पुनः ४०
 तत्कृत्वा लभते नारी पुत्रं भास्करतेजसम् । तथा बन्ध्या लभे-
 द्गर्भं व्यासस्य वचनं यथा ॥ ४१ ॥ विप्ररत्नापहारी च सोऽन-
 पत्यः प्रजायते । तेन कार्यं विशुद्ध्यर्थं महारुद्रजपादिकम् ॥ ४२ ॥

अन्तरीमें लिखी हुई पुस्तक रखकर ॥ ३५ ॥ आवाहन आदि
 उपचारोंसे और दक्षिणाओंसे पूजा करे फिर वस्त्र भूषण और
 गंधोंसे पूजा कर उसको बुद्धिमान् पुरुष पूजनीय महात्मा आचार्य
 को देकर भवबन्धनसे मुक्त होजाता है, सब पापोंको निवारण
 करने वाले ऐसे विधानसे सुनने पर यह सब कामनाकी अर्थ
 की सिद्धिको देने वाला पुराण सिद्धिप्रद होजाता है, हे राजन्!
 जो पुरुष इस विधिसे इस पुराणको समाप्त करता है ३७-३८
 हे भारत ! उसकी स्त्री एक मासमें गर्भ धारण करती है हे राजन्!
 जो इस विधिसे व्यासजीकी पूजा करता है और सदा मानसे
 उनका सत्कार करता है उसकी स्त्री गर्भिणी होजाती है, मैंने जो
 तीन प्रकारकी भक्ति और पूजा आदि कही है उसको करनेसे
 स्त्रीके सूर्यकी समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होता है और व्यासजीके
 वचनानुसार बन्ध्या स्त्रीके गर्भ रह जाता है ॥ ३६-४१ ॥
 जो पुरुष ब्राह्मणके रत्नोंको चुराता है, वह पुरुष निःसन्तान
 होकर उत्पन्न होता है उसको श्रद्धिके लिये महारुद्र आदिका
 जप करना चाहिये ॥ ४२ ॥ राजा परीक्षितने श्रद्धा और सत्य

अथ पारीक्षितो राजा श्रद्धायुक्तेन चेतसा । भवतासत्ययुक्तेन
 चैकाग्रमनसा तथा ॥ ४३ ॥ श्रुत्वा ते निश्चयं कृत्वा दम्भशाव्य
 विवर्जितः । श्रुत्वेमं हरिवंशं वै व्यासं संपूज्य भक्तितः ॥ ४४ ॥
 दानं च बहुलं कृत्वा व्यासाशीर्षुश्च भारत । प्रसन्नवदनो भूत्वा
 रमते रमणीयुतः ॥ ४५ ॥ प्राग्जन्मजनिते पापे क्षीणे वै जनमे-
 जय । ऋतावाद्ये तु मन्धत्ते गर्भं तस्य कुलांगना ॥ ४६ ॥ द्वितीये
 वा तृतीये वा चतुर्थे मासि वै पुनः । पञ्चमे वापि षष्ठे
 वा सप्तमे वाष्टमेऽपि वा ॥ ४७ ॥ नवमे दशमे मासि दोहदं निश्चयं
 भवेत् । व्यासेनोक्तमिदं पुण्यं वन्ध्यागर्भस्य लक्षणम् ॥ ४८ ॥
 पितृनुद्धरते सर्वान् दश पूर्वान् दशापरान् । हरिवंशं नरः श्रुत्वा
 सेतिहासं पुरातनम् ॥ ४९ ॥ इदं मया तवाग्रो च सर्वं प्रोक्तं नर-
 र्पभ । यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५० ॥ अपुत्रो

से युक्त प्रकाशवान् एकाग्र हृदयसे इस बातको सुन कर दंभ
 और शठताको त्याग कर हरिवंशको सुननेके अनन्तर व्यासजी
 की भक्ति पूर्वक पूजाकी ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ हे भारत! फिर वह बहुतसा
 दान दे व्यासजीके आशीर्वाद को ग्रहण कर जहाँ पर रमणी
 थी तहाँ प्रसन्नमुख होकर रमण करने लगा ॥ ४५ ॥ (ऐसा
 ही दूसरोंको भी करना चाहिये) हे जनमेजय ! इस प्रकार पूर्व
 जन्मके पापके क्षीण होने पर उसकी स्त्री पहिले ऋतुकालमें ही
 गर्भको धारण करती है ॥ ४६ ॥ नहीं तो दूसरे तीसरे चौथे
 पाँचवें छठे सातवें आठवें नवमें अथवा दशमें महीने अक्षय
 ही गर्भ धारण करती है, व्यासजीने यह वन्ध्या स्त्रीके गर्भ
 धारण करनेका पुण्यमय लक्षण कहा ॥ ४७-४८ ॥ मनुष्य इस
 प्राचीन हरिवंशको इतिहास सहित सुन कर अपने दश पहिले
 और दश अगले पितरोंका उद्धार करता है ॥ ४९ ॥ हे नरर्पभ !
 मैंने तुझसे सब बात कह दी इसके सुननेसे ही मनुष्य सब पापों

पुत्रमाप्नोति ह्यधनो धनमाप्नुयात् । नरमेघाश्वमेधाभ्यां यत् फलं
प्राप्यते नरैः ॥ ५१ ॥ तत् फलं लभते सर्वं पुराणश्रवणाद्धरेः ।
ब्रह्महा भ्रूणहा गोघ्नः सुरापो गुरुतल्पगः । सकृत् पुराणश्रव-
णात् पूर्ता भवति नान्यथा ॥ ५२ ॥ इदं मया ते परिकीर्तितं
महच्छ्रीकृष्णमात्म्यमपारमद्भुतम् । शृण्वन् पठन्नाशु समाप्तवान्
फलं यच्चापि लोकेषु सुदुर्लभं महत् ॥ ५३ ॥

इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये श्रवणविधौ दान-
विधानकथनं नामषष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

से मुक्त हो जाता है ॥ ५० ॥ और अपुत्र मनुष्य पुत्र पाता है,
निर्धन धन पाता है, मनुष्य नरमेघ और अश्वमेध यज्ञोंको करके
जिस फलको पाते है, वह सब फल हरिके पुराणको सुननेसे
मिलता है ब्रह्महत्यारा गोघाती भ्रूणहत्यारा शरावी और गुरु-
पत्नीगामी पुरुष इस पुराणको एक बार सुननेसे ही पवित्र हो
जाता है इसमें अन्यथा नहीं हो सकता अर्थात् कुछ सन्देह नहीं
है ॥ ५१-५२ ॥ यह श्रीकृष्णजीका अपार और अद्भुत बड़ा
भारी माहात्म्य कहा, इसको सुन कर अथवा इसके पाठ को
समाप्त करने वाला मनुष्य जिस फलको शीघ्रतासे पाता है,
(और उपायसे) इस लोकमें उस फलका पाना बड़ा कठिन है ५३
छठा अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥



हरिवंशमाहात्म्य समाप्त ।

❀ श्रीहरिः ❀

महाभारत

हरिवंश-पर्व

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं चैव
ततो जयमुदीरयेत् ॥ १ ॥ द्वैपायनोष्ठपुटभिःसृतमप्रमेयं पुण्यं पद्मि-
त्रमथ पापहरं शिवं च । यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं किं
तस्य पुष्करजनैरभिषेचनेन ॥ २ ॥ जयति पराशरसूनुः सत्य-
वतीहृदयनन्दनो व्यासः । यस्यास्यकमलगलितं वाद्मयममृतं
जगत् पिवति ॥ ३ ॥ यो गोशतं फनकंशृगमयं ददाति विप्राय

नारायण (नर-जीवसे उत्कृष्ट अन्तर्यामी हिरण्यगर्भ) को
और नरको तथा बाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको और
व्यासजीको प्रणाम करके जय (जिससे अविद्याको जीता जाता
है ऐसे अंधको) पढ़े ॥ १ ॥ जो पुरुष द्वैपायन ऋषिके ओष्ठ
रूपी दोनेसे निकले हुए अद्भुत धर्मकी वृद्धि करनेवाले पारंग्यके
अरिष्टको दूर करनेवाले दुर्वासनानाशक और सुख देनेवाले
वचने हुए महाभारतको सुनता है उसको पुष्कर तीर्थके जलमें
स्नान करनेसे क्या ? अर्थात् यह पुष्करतीर्थसेभी अधिक फल
देने वाला है ॥ २ ॥ जिनके मुखकमलसे निकले हुए बाणीरूप
अमृतका जगत् पान करता है, उन सत्यवतीके हृदयको आनन्द
देने वाले पराशर ऋषिके पुत्र व्यासजीकी जय रहे ॥ ३ ॥ जो
पुरुष वेदके विद्वान् बहुश्रुत ब्राह्मणको सोनेसे मढ़े हुए सींगों
वाली सौ गाँवें देता है और जो पुरुष इसी प्रकार पुण्यमयी

वेदविद्वेषे च बहुश्रुताय । पुरुषा च भारतकर्था शृणुयाच्च तद्व-
 च्छल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव ॥ ४ ॥ शताश्वमेधस्य
 यदत्र पुरुषं चतुःसहस्रस्य शतक्रतोश्च । अनन्तपुरुषं हरिवंश-
 दानात् प्रकीर्तितं व्यासमहर्षिणा च ॥५॥ यद्वाजपेयेन तु राज-
 सूयाद्दृष्टं फलं हस्तिरथेन चान्यत्तत्तलभ्यते व्यासवचः प्रमाणं
 गीतं च वाल्मीकिमहर्षिणा च ॥६॥ यो हरिवंशं लेखयति यथा
 विधिना महातपाः सपदि । स जयति हरिपदकमलं मधुपो हि
 यथा रसेन संलुब्धः ॥७॥ पितामहाद्यं प्रवदन्ति पठं महर्षिमत्त-
 र्यविभूतियुक्तम् । नारायणस्यांशजमेकपुत्रं द्वैपायनं वेद महा-

भारतकी कथाको सुनता है इन दोनोंको एकसा फल मिलता है । ४। शताश्वमेध नाम वाले और चतुःसहस्र नाम वाले (जिसमें चारसौ अक्षय अन्नप्रद पात्र होते हैं) और शतक्रतु (इन्द्र) के पदको प्राप्त कराने वाले कर्मका जो फल मिलता है, व्यासजीने कहा है, कि-वही अनन्त फल हरिवंशका दान करनेसे मिलता है ॥ ५ ॥ जो फल वाजपेय राजसूय और हस्तिदानसे मिलता है, वही फल (इसके दानसे) मिलता है, इसमें व्यासजीका वचन प्रमाण है और महर्षि वाल्मीकिनेभी यही बात कही है १० जो पुरुष विधिके अनुसार शीघ्रतासे हरिवंशको लिखता है, वह पुरुष जैसे रसलोभी भौरा कमल पर पहुँच जाता है, इसी प्रकार हरिपदकमल पर पहुँच जाता है ॥ ७ ॥ जिनको पिता-महके आदि (नारायण) कहते हैं (व्यासो नारायणो हरिः) और जिनसे पितामहके आदि (नारायण) लठे (व्यास परा-शर, शक्ति, वसिष्ठ, ब्रह्मा, नारायण) कहाते हैं, उन अक्षय विभूति वाले नारायणके अंशसे उत्पन्न हुए एक शुक पुत्र वाले महानिधान (वेद) के अधिष्ठानरूप अक्षय विभूति वाले व्यास जीकी में उपासना करता है (नीलकण्ठ—वन्तसे विदा-

निधानम् ॥ ८ ॥ आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुषदुतम् ।

“महर्षिः ऋषिर्विषः काव्येन” इस श्रुतिके अनुसार महर्षि शब्द से ही विष्णुका ग्रहण करते हैं, यद्वा—“अहं मनुरभवं सूर्यरच” इस प्रकार वामदेवकी समान मत्स्यगभिन्न (सबमें वर्तमान होनेसे अभिन्न) ब्रह्मका अनुसन्धान करता हुआ अपने आत्माको ही नमस्कार करता है, श्रुतिमें भी कहा है, कि—“महमेव नमो नमः” इस पक्षमें यह अर्थ होगा कि—मैं द्वैपायन व्यासजीको महा निधान ब्रह्म जानता हूँ, इस प्रकार स्वरूपानुवादसे ब्रह्मभाव दिखाया है । अथवा—द्वीप नाम गजका है उसके शुण्डादण्ड आदि लक्षण ही अयन ज्ञापक है जिनके ऐसे द्वैपायनकी अर्थात् गजाननकी मैं उपासना करता हूँ । अथवा द्वीपी नाम व्याघ्रका है उसके चर्मका नाम संस्कृतमें द्वैप होता है उसके अयन अर्थात् चिन्ह वाली शक्तिकी मैं उपासना करता हूँ, स्मृतिमें कहा भी है, कि—‘द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभैरवा’ । अथवा (सात) द्वीपोंमें जिनका अयन (प्रकाशकस्वरूप चिन्ह) है (पाताल आदि में नहीं है-) ऐसे द्वैपायन-सूर्यकी मैं उपासना करता हूँ । अथवा द्वैप (गजचर्म) जिनका अयन (ज्ञापक) है ऐसे द्वैपायन महादेवकी मैं उपासना करता हूँ, अथवा—द्वीप (रवेन्द्वीप) जिनका अयन (स्थान) है उन द्वैपायन विष्णुकी मैं उपासना करता हूँ । इन सबके ईश्वर होनेके कारण इनका पितामहसे छटा होना घटता है, यथा सत्शब्द वाच्य मायाशब्द (मायायुक्त) ब्रह्मसे अव्यक्त हुआ, अव्यक्तसे महान् महान्से अहकार और अहंकारसे पञ्चतन्मात्रा और पञ्चतन्मात्राओंसे पञ्चमहाभूत और उन से चतुर्मुख ब्रह्माजीका शरीर उत्पन्न हुआ, ऐसे शास्त्रानुकूल सृष्टिकर्तके अनुसार आरोग्यक्रमसे ये सब पितामहसे बड़े सिद्ध होते हैं, महर्षि शब्दसे यहाँ पर सर्वज्ञ अर्थ लेना चाहिये । नारा-

गच्छयम् ॥ २ ॥ मंगल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनघं शुचिम् ।
नमस्कृत्य हृषीकेशं चराचरगुरुं हरिम् ॥ ३ ॥ नैमिषारण्ये कुल-

अव वृक्षकी समान चौथे विराट्पुरुषका वर्णन करते हैं कि-जो सत् और असत्से पर है अर्थात् कार्यकारण-सूत्र और ईशान-से अन्य शुद्ध ब्रह्म है वही विश्व-विराट् कहलाता है । इसीके और विशेषण कहते हैं, कि-यह असत् है, अर्थात् सत्से विलक्षण है, और सदसत् रूप होनेसे अनिर्वचनीय है, दृश्यमान (दीखने वाला) होनेसे यह सत् है, और श्रुतिमें कहा है, कि-"नेह नानास्ति किञ्चन अर्थात्ब्रह्मज्ञान होनेके अनन्तर यह कुल्ल नहीं है, इससे यह असत् है इस प्रकार यह अनिर्वचनीय है, क्योंकि-पेसी (और कोई) वस्तु नहीं है जो परस्पर विरुद्ध सत् और असत्से युक्त हो, विश्वहेतु होनेसे इसी प्रकार सूत्र और ईशान भी अनिर्वचनीय हैं, क्योंकि-कार्य करणकी समसत्ताका नियम नहीं है पहिला पुरुष अनिर्वचनीय नहीं है क्योंकि-उसमें कारणत्व औपचारिक है, कहा भी है, इस द्वैतरूपी इन्द्रजालके उपादान कारण अज्ञानका आश्रय लेकर ब्रह्म कारण कहलाता है । उसको प्रणाम करके अब फलोपम पाँचवे विष्णुका वर्णन करते हैं-कि-परोके अर्थात् सूत्रात्माओंके और अवरोके अर्थात् विराट्ओंके रचयिता, जिसमें बहुतसे बीजरूपी गर्भ भरे हुए होते हैं उस वृक्षस्थ फलसे भी बहुतसे अक्षुर और तरु होना सम्भव है, इसी प्रकार कार्याण्यनिपरिच्छिन्न भी चतुर्भुज आदिसे पर सूत्र-आदि का होना सम्भव है ऐसे परावरोके, सृष्टा, पुराण-प्राचीन काल में भी नवीन (अर्थात्) फलकी समान उत्पन्न न होने वाले इसीलिये पर अर्थात् अत्यन्त अल्पम अर्थात् अगन्तय शून्य (इससे आकाश आदिकी समान भगवन्मूर्तिका नित्यत्व सिद्ध होगा है, स्मृतिमें भी लिखा है, कि-"देवानां कार्यासिद्धयर्थमावि-

पतिः शौनकस्तु महामुनिः । सौतिं पप्रच्छ धर्मात्मा सर्वशास्त्रं-
निशारदः ॥ ४ ॥ शौनक उवाच । सौते सुमहदाख्यानं भवतो
परिकीर्तितम् । भरतानां च सर्वेषां पार्थिवानां तथैव च ॥ ५ ॥
देवानां दानवानां च गन्धर्वोरगरत्नसाम् । दैत्यानामथ सिद्धानां
गुह्यकानां तथैव च दशत्यद्भुतानि कर्माणि विक्रमां धर्मनिश्चयाः ।
विचित्रा च कथायोगा जन्म चाग्रयमनुत्तमम् ॥७॥ कथितं भवता
पुण्यं पुराणं श्लक्ष्णया गिरा । मनः कर्णसुखं सौते प्रीणात्य-
मृतसंगितम् ॥ ८ ॥ तत्र जन्म कुरुणा वै त्वयोक्तं लोमहर्षणे ।

भवति सा यदा । उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ॥'
अर्थात् वह जिस समय लोकहितार्थ प्रकट होती है, तब वह नित्य-
मूर्ति भी लोकमें उत्पन्न हुई कहलाती है ।) मद्गन्ध-आनन्द देने
वाले, मद्गन्ध-आनन्दरूप, विष्णुव्यापनशील, चरणय, मुमुक्षुओंके
वरणीय, अन्ध-आगन्तुकदोष शून्य, शुचि-स्वभावशुद्ध, हृषी-
केश-इन्द्रियोंके प्रवर्तक, चराचरगुरु-चराचरको हितका उपदेश
देनेवाले, हरि-सब पापोंको दूरकरनेवालेको प्रणाम करके (सूत-
जीसे ब्रूभा) ॥ १-४ ॥ शौनकने कहा, कि हे सूतपुत्र !
तुमने भरतवंशी राजाओंका तथा देव दानव गन्धर्व सर्प राक्षस
दैत्य सिद्ध तथा गुह्यकोंका बड़ा भारी आख्यान कहा और तुमने
उनके पराक्रम, धार्मिक विचार, विचित्र कथाएँ और उनका
अग्रय (गर्भवास आदि क्लेशोंसे रहित) अशुत्तम (वीर्यसम्बन्ध
के बिना केवल धर्मकी सामर्थ्यसे अग्नि आदिसे धृष्टशुम्न आदि
का) जन्म भी कहा और उनके अति अद्भुत (व्यासजीके
जन्मके समय दिनमें ही अन्धकारकी रचना आदि) कर्म भी
कहे ॥ ५-७ ॥ आपने पुण्यपद पुराणका मधुर वाणीसे वर्णन
किया, यह मनको और कर्णोंको सुख देनेवाला आख्यान शुभे
अमृतकी समान प्रसन्न कर रहा है ॥ ८ ॥ हे लोमहर्षणके पुत्र !

न तु वृषण्यन्धकानां च तद्भवान् वक्तुमर्हति ॥६॥ सौतिरुवाच ।
 जनमेजयेन यत् पृष्ठः शिष्यो व्यासस्य धर्मवित् । तत्तेऽहं संपव-
 द्यामि वृष्णीनां वंशमादितः ॥ १० ॥ श्रुत्वेतिहासं कात्स्न्येन
 भरतानां स भारतः । जनमेजयो महाभाज्ञो वैशम्पायनमब्रवीत् १
 जनमेजय उवाच । महाभारतमाख्यानं बह्वर्थं श्रुतिविस्तरम् ।
 फथितं भवता पूर्वं विस्तरेण मया श्रुतम् ॥ १२ ॥ तत्र शूराः
 समाख्याता बहवः पुरुषर्षभाः । नामभिः कर्मभिरचैव वृषण्यंधक-
 महारथाः ॥ १३ ॥ तेषां कर्माविदातानि त्वयोक्तानि द्विजोत्तम ।
 तत्र तत्र समासेन विस्तरेणैव मे प्रभो ॥ १४ ॥ न च मे वृत्ति-
 रस्तीह कथ्यमाने पुरातने । एकरचैव मतो राशिर्वृष्णयः पाण्ड-
 वास्तथा ॥ १५ ॥ भवांश्च वंशकुशलस्तेषां प्रत्यक्षदर्शिवान् । कथ

आपने उसमें कुरुओंके जन्मका तो वर्णन किया, परन्तु वृष्णि और
 अन्धकोंका वर्णन नहीं किया, अतः आपके उनका वर्णन करना
 चाहिये ॥ ६ ॥ सूनपुत्रने उत्तर दिया, कि-जयमेजयने व्यास
 जीके धर्मात्मा शिष्यसे जिस प्रकारबूझा था, (और उन्होंने)
 वृष्णियोंके वंशका जिसप्रकार आदिसे वर्णन किया था, उसको
 मैं तुमसे कहता हूँ १० भरतवंशी महाबुद्धिमान् जनमेजय भरत-
 वंशियोंके पूर्ण इतिहासको सुनकर वैशंपायनजीसे कहनेलगे ११
 जनमेजयने कहा, कि-आपके कहेहुए श्रुति (वेद) को बढानेवाले
 नाना अर्थवाले महाभारतके आख्यानको मैंने विस्तारसे सुन
 लिया ॥ १२ ॥ उनमें वृष्णिवंशी और अन्धकवंशी शूरवीरों
 का नाम और कर्मसे आपने वर्णन किया ॥ १३ ॥ और हे द्विजो-
 त्तम ! आपने उनके विशुद्ध कर्मोंका भी यत्र तत्र संक्षेपसे और
 विस्तारसे वर्णन किया ॥ १४ ॥ परन्तु इस पुराणको सुनते २
 मेरी वृत्ति नहीं होती, हे प्रभो ! वृष्णि और पाण्डव एक कुटुंब
 के ही माने जाते हैं ॥ १५ ॥ और आप वंशका वर्णन करनेमें

यस्व कुलं तेषां विस्तरेण तपोधन ॥ १६ ॥ यस्य यस्यान्वये ये
 ये तांस्तानिच्छामि वेदितुम् । स त्वं सर्वमशेषेण कथयस्व महा-
 मुने । तेषां पूर्वविष्टष्टिं च विचिन्त्येमां प्रजापतेः ॥ १७ ॥ सौति-
 रुवाच । सत्कृत्य परिपृष्टस्तु स महात्मा महातपाः । विस्तरेणानु-
 पूर्व्या च कथयामास तां कथाम् ॥ १८ ॥ वैशम्पायन उवाच ।
 शृणु राजन् कथां दिव्यां पुण्यां पापमोचनीम् । कथयमानां
 मया चित्रां बह्वर्थां श्रुतिसंगिताम् ॥ १९ ॥ यश्चेमां धारयेद्वापि
 शृणुयाद्वाप्यभीक्ष्णशः । स्ववंशधारणं कृत्वा स्वर्गलोके मही-
 यते ॥ २० ॥ अव्यक्तं कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम् ।

कुशल हैं, क्योंकि-आपने सब प्रत्यक्ष देखा है अतः हे तपोधन!
 आप वृष्णिगोके वंशका विस्तारपूर्वक वर्णन करिये ॥ १६ ॥
 हे महामुने जिस २ के वंशमें जो २ उत्पन्न हुए हों उन सबका
 आप मुझसे पूर्णतया वर्णन करिये और विचार करके प्रजा-
 पतिसे आरम्भ करके उनकी सृष्टिका वर्णन करिये ॥ १७ ॥
 सूतपुत्रने कहा, कि-जब उन महात्मासे सत्कारपूर्वक यह बात
 कही तो वह महातपस्वी अनुक्रमसे विस्तारपूर्वक इस कथाको
 कहने लगे ॥ १८ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-हे राजन् ! मुझसे
 तुम पापको दूर करने वाली पुण्यमयी सारपूरित अर्थवाली श्रुति-
 सम्मत दिव्य कथाको सुनो १९ जो पुरुष इसको धारण करता
 है अर्थात् हृदयमें पुस्तकमें अथवा घरमें स्थापन करता है, अथवा
 इसको सर्वदा सुनता है, वह अपने वंशको स्थापित करके स्वर्ग-
 लोकमें पूजा पाता है ॥ २० ॥ व्यक्त इदं प्रत्यय गोचर और
 अहं प्रत्ययगोचर (अर्थात् यह और मैं इन वस्तुओं) से भिन्न
 अव्यक्त अत एव कारण अर्थात् द्रष्टा और दृश्यका बीजरूप
 जो वह शास्त्रसिद्ध नित्य (आदिअन्तरहित) सत् और अस-
 दात्मक मायाशबल (मायायुक्त) ब्रह्म है वह प्रधान पुरुष

प्रधानं पुरुषं तस्मान्निर्ममे विश्वमीश्वरम् ॥ २१ ॥ तं वै विद्धि
 महाराज ब्रह्माण्डममितौजसम् । स्रष्टारं सर्वभूतानां नारायणपरा-
 यणम् ॥ २२ ॥ अहंकारस्तु महतस्तस्माद् भूतानि जज्ञिरे । भूत-
 भेदाश्च भूनेभ्यः इति सर्गः सनातनः ॥ २३ ॥ विस्तरावयवं
 चैव यथापहं यथाश्रुतम् । कीर्त्यमानं शृणु मया पूर्वेपां कीर्तिवर्ध-
 नम् २४ धन्यं यशस्यं शत्रुघ्नं स्वर्गमायुःप्रवर्धनम् । कीर्त्तनं स्थिर-
 कीर्त्तनां सर्वेषां पुण्यकर्मणाम् ॥२५॥ तस्मात् कल्पाय ते कल्पः
 समग्रं शुचये शुचिः । आट्टिणिवंशाद्द्वयामि भूतसर्गमनुत्तमम् २६-

उभयात्मक है उस कारणसे यह विश्व स्थूल सूक्ष्म जगत्-उत्पन्न
 हुआ है, इसी लिये यह विश्व ईश्वरसे अभिन्न है ॥ २१ ॥ उस
 ही अव्यक्त नाम वाले पुरुषको तुम ब्रह्मा अर्थात् महत्त्वाभिमानी
 जानो, कार्य कारणसे भिन्न नहीं होता है अत एव उस सब
 भूतोंके स्रष्टाको तुम नारायणके परायण अर्थात् अभीन (तत्स्व-
 रूप समझो, ॥ २२ ॥ महान्से अहंकार उत्पन्न हुआ उससे
 आकाश आदि सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए और उनसे पाँच स्थूल
 भूत और जरायुज आदि उत्पन्न हुए, यह सनातन प्रवाहरूप-
 स्रष्टि कही ॥ २३ ॥ अब मैं विस्तरावयवको अर्थात् नाना वंशों
 की शाखा पशाखा वाली स्रष्टिको बुद्धिके अनुसार शास्त्रानु-
 कूलरीतिसे कहना हूँ, उस पूर्वपुरुषोंकी कीर्तिको बढ़ाने वाले
 चरित्रको तुम सुनो ॥ २४ ॥ स्थिर कीर्त्ति वाले उन सब पुण्य
 कर्म वालोंका कीर्त्तन धन देने वाला, यश देने वाला, शत्रुओंको
 नष्ट करने वाला स्वर्ग देने वाला और आयुको बढ़ाने वाला है २५
 पुण्यान्माओंका कीर्त्तन धन आदि देने वाला है, और तू सुनने
 और धारण करनेमें समर्थ है अतः तुझ पवित्र पुरुषसे मैं वृष्णि-
 वंशका वर्णन करनेके लिये चार प्रकारकी अनुत्तम और पवित्र
 भूतस्रष्टियों कहना हूँ ॥ २६ ॥ सूक्ष्म भूतोंकी स्रष्टि रचनेके

ततः स्वयम्भूर्भगवान् सिद्धान्तविधाः प्रजाः। अप एव सप्तर्षी
 तासु वीर्यमवाप्तवत् ॥ २७ ॥ आपो नारा इति प्रोक्ता आपो
 वै नरसूनवः । अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः । २८।
 हिरण्यवर्णमभवत्तदंडमुदकेशयम् । तत्र जज्ञे स्वयं ब्रह्मा स्वयं-
 भूरिति नः श्रुतम् ॥ २९ ॥ हिरण्यगर्भो भगवानुपित्वा परिव-
 त्सरम् । तदण्डमकरोद् द्वैधं दिवं भुवमथापि च ॥ ३० ॥ तयोः

अनन्तर नाना प्रकारकी भौतिक प्रजाओंको रचना चाहने वाले ईश्वरने पहिले आप (जल) शब्दसे उपलक्षित जरायुज आदिके उपादानभूत स्थूल पञ्चभूतोंको रचा और उनमें वीर्य अर्थात् अण्डको उत्पन्न करनेकी सामर्थ्यको रक्ता अर्थात् स्वयं ही उसमें प्रविष्ट होगया ॥ २७ ॥ (नारायणके नामके इस निर्वचन को श्रुतिका अवतरण देकर दृढ़ करते हैं, कि-) “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः—अर्थात् आप (जल) नार कहलाते हैं और इनको नरसूनु भी कहते हैं” और वह पहिले इसका अपन (स्थान) था अत एव वह नारायण कहलाते हैं, इस कथनसे “तत्सृष्ट्वा तदेवानुपविशत् अर्थात् वह सृष्टि रच कर उसमें स्वयं ही प्रविष्ट होगया” इस श्रुतिका भाव दिखाया है २८ वह वीर्य अण्ड होगया अर्थात् हिरण्यवर्ण चित्प्रकाशस्वरूप होगया, तात्पर्य यह है, कि-पूर्वोक्त क्रममें अव्यक्तसे ब्रह्मा नाम वाला महान् उत्पन्न हुआ, उससे अहंकार उत्पन्न हुआ उससे सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए उनसे पुष्पस्थानीय असंज्ञ स्थूल भूत उत्पन्न हुए उनमें रेतःस्थानीय चित्पतिविष पडा, उनका संघात अण्ड हुआ वह उदकेशय हुआ अर्थात् स्त्रीरूप सूक्ष्म भूतोंमें अवस्थित होगया, उस गर्भमें स्वयंभू ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए थे, यह हमने सुना है ॥ २९ ॥ हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) जीने उस अण्डमें वर्ष भर तक रह कर उस अण्डके दो टुकड़े कर दिये

शकलशोर्मध्ये आकाशमसृजत् प्रभुः । अप्सु पारिप्लवां पृथिवीं
 दिशश्च दशधा दधे ॥ ३१ ॥ तत्र कालं मनो चार्चं कामं क्रोध-
 मथो रतिम् । ससर्ज सृष्टिं तद्रूपां स्रष्टुमिच्छन् प्रजापतीन् ॥ ३२ ॥
 मरीचिपद्मंगिरसं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम् । वसिष्ठं च महातेजाः
 सोऽसृजत् सप्तमानसान् ॥ ३३ ॥ सप्त ब्राह्मण इत्येते पुराणे
 निश्चयं गताः । नारायणात्मकानां वै सप्तानां ब्रह्मजन्मनाम् ३४
 ततोऽसृजत् पुनर्ब्रह्मा रुद्रं रोपात्मसंभवम् । सनत्कुमारं च विभुं
 पूर्वेषामपि पूर्वजम् ॥ ३५ ॥ सप्तैते जनयन्ति स्म प्रजा रुद्रश्च

और उन दोनों दुकड़ोंसे स्वर्ग और पृथ्वीको रच दिया ॥३०॥
 मधु ब्रह्माजीने उन दोनों दुकड़ोंके बीचमें आकाशको रचा और
 जलसे पूरित पृथ्वीको तथा दिगुपाधि सूर्यको रच कर प्राची
 आदि दश भेदोंसे दिशाओंको रचा (इससे मतीत होता है, कि-
 अण्डके भीतर ही दिशा आदिकी कल्पना है, अण्डके बाहर
 नहीं है) ॥ ३१ ॥ फिर तहाँ पर काल मन वाणी काम क्रोध
 और विषयमीतिको रचा फिर तद्रूप (अण्डाकार) पिण्डसृष्टि
 को रचा, फिर उन्होंने प्रजापतियोंको रचनेकी इच्छासे मरीचि
 अत्रि अङ्गिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु और महातेजस्वी वसिष्ठ इन
 सात मानस (पुत्रों) को रचा, ये सात ब्राह्मणजातिका अभि-
 मान रखने वाले हैं अर्थात् गृहस्थाश्रममें परायण रहते हैं और
 ये नारायणमें ही मनको लगाने वाले सनक सनन्दन सनातन
 सनत्कुमार स्कन्द नारायण और रुद्र नाम वाले ब्रह्माजीसे
 उत्पन्न हुएअपने सात भाइयोंका अनादर करके पुराण-वेद-
 मार्गमें निरत रहते हैं अर्थात् कर्मको ही श्रेष्ठ मानते हैं ॥ ३४ ॥
 फिर ब्रह्माजीने अपने रोपसे रुद्रको उत्पन्न किया और पूर्वपुरुषों
 के भी पूर्वज विभु सनत्कुमार और सनन्दन आदि सात पुरुषों
 को उत्पन्न किया ॥ ३५ ॥ ये सातों और रुद्र प्रजाकी सृष्टि

भारत । स्कन्दः सनत्कुमारश्च तेजः संतिप्य तिमृतः ॥ ३६ ॥
 तेषां सप्त महावंशा दिव्या देवगणान्विताः । क्रियावन्तः प्रजा-
 वन्तो महर्षिभिरलंकृताः ॥ ३७ ॥ विद्युतोऽशनिमेवांश्च रोहि-
 तेन्द्रधनुषि च । वर्षांसि च ससर्जादौ पर्जन्यं च ससर्ज ह ३८
 ऋचो यंजुषि सामानि निर्ममे यज्ञसिद्धये । साध्यास्तैरयजन्
 देवानित्येवमनुशुश्रुम । मुख्याद्देवानजनयत् पितृंश्चेशोपि वत्सराः ३९
 प्रजनाञ्च यनुष्यान् वै जघनान्निर्ममेऽसुरान् । साध्यानजनय-
 देवानित्येवमनुशुश्रुम ॥ ४० ॥ उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्य-

करने लगे, हे भारत ! स्कन्द और सनातन सृष्टिकी सामर्थ्य
 रूप तेजको नियममें रख कर सृष्टि करते थे ॥३६॥ उन आठोंमें
 रुद्रके अतिरिक्त और सातोंके दिव्य (आदित्य आदि) देवता
 वाले, सात महावंश देवताओंसे युक्त थे उनको क्रिया करनेवाले
 प्रजावान् रुद्रपथ आदि महर्षियोंने अलंकृत कर दिया ॥ ३७ ॥
 (अब दो श्लोकोंसे क्रियावानोंको अरेत्ति हवि मन्त्र और देवता
 आदिकी सृष्टि कहते हैं) फिर विद्युत् अशनि मेव सीधा इन्द्र-
 धनुष आदि देवताओंको पर्जन्य (ओषधियों) की (यज्ञकी सिद्धि
 के लिये) रचा (प्रजापते रेतो देवा देवाना रेतो वर्ष वर्षस्य रेत
 ओषधयः—अर्थात् देवता प्रजापतिना वीर्य है, वर्षा देवताओंका
 वीर्य है और ओषधिमें वर्षाका वीर्य है, देवता और पत्नी ये
 दोनों आकाशमें विचरण करते हैं, इस समानतासे यहाँ (वयत्)
 पत्नीशब्दसे देवता अर्थ लिया है) ॥ ३८ ॥ फिर उन्होंने यज्ञ
 की सिद्धिके लिये ऋक् और सामवेदकी प्रकृत क्रिया और हमने
 सुना है, उनसे साध्योंने देवताओंकी पूजाकी थी, फिर उन ईश
 ने मुखसे देवताओंको और वत्सरासे पितरोंको उत्पन्न
 क्रिया ३९ उपस्येन्द्रियसे मनुष्योंको और पश्चाद्भागसे असुरोंको
 रचा और हमने सुना है, कि फिर साध्य (प्राचीन) देवताओंको

स्तस्य जङ्घिरे । आपवस्य प्रजासर्गं सृजतो हि प्रजापतेः ॥४१॥
 सृजमानाः प्रजा नैव विवर्धन्ते यदा तदा । द्विधा कृत्वाऽत्मनो
 देहमर्धेन पुरुषोभवत् ॥ ४२ ॥ अर्धेन नारी तस्यां स ससृजे
 विविधाः प्रजाः । दिवं च पृथिवीं चैव महिम्ना व्याप्य तिष्ठतः ४३
 विराजमसृजद्विष्णुः सोऽसृजत् पुरुषं विराट् । पुरुषं तं मनुं विद्धि
 तद्वै मन्वन्तरं स्मृतम् ॥४४॥ द्वितीयमापवस्यैतन्मनोरन्तरमुच्यते ।
 स वैराजः प्रजा सर्गं ससर्ज पुरुषः मनुः । नारायणविसर्गस्य

उत्पन्न क्रिया ॥ ४० ॥ फिर उस (आपव-वसिष्ठ प्रजा-
 पति) के प्रजाकी सृष्टि करते समय अर्द्धोंसे छोटे बड़े भाणी
 उत्पन्न हुए ॥ ४१ ॥ परन्तु सृष्टि करने पर भी उनकी प्रजा
 की जब वृद्धि नहीं हुई तब वह अपने शरीरके दो भाग करके
 आधे भागसे पुरुष होगए, ॥ ४२ ॥ और आधेसे (शतरूपा नाम
 वाली) नारी होगए उन्होंने उसमें (शतरूपाके गो बड़वा आदि
 के रूपको धारण करने पर अपने आप उस २ जातिके वील
 घोड़े आदिके रूपको धारण करके) नानापकारकी (मैथुनी)
 सृष्टिको रचा, यह सब सृष्टि उन्होंने अपने तेजसे स्वर्ग और पृथ्वी
 में व्याप्त होकर रची थी ॥ ४३ ॥ विष्णुने (हिरण्यगर्भके द्वारा)
 विराज (आपवाख्यको) रचा था और उस विराट्ने पुरुषको
 रचा था उस पुरुषको तुम मनु समझो, वही सर्ग मन्वन्तर कह-
 लाता है ४४ अब मन्वन्तर पदकी व्याख्या करते हैं, हिरण्य-
 गर्भके व्यवधानवाला सर्ग आपव कहलाता है अतः वह विष्णु
 का पौत्र कहलाता है वह अयोनिज प्रजा प्रथम सर्ग है, उसने
 ही मनुके द्वारा योनिजप्रजारूपी दूसरी सृष्टिको रचा; इस कारण
 मनु नामक आपव (स्त्री नाम वाला) जो दूसरा अन्तर पड़ा
 इससे उस सर्गका नाम मन्वन्तर है विष्णुने विराट्को रचा और
 विराट्ने पुरुषकी रचनाकी, यह सब नारायणकी सृष्टि कही,

प्रजास्तस्याप्ययोनिजाः ॥४५॥ आयुष्मान् कीर्तिमान् धन्यः प्रजा-
वाञ्छुतवास्तथा । आदिसर्गं विदित्वेमं यथेष्टां माप्नुमाद्गतिम् ४६

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

आदिसर्गकथने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

वैशम्पायन उवाच । स सृष्ट्वा सुप्रजास्वेवमापवो वै प्रजा-
पतिः । लेभे वै पुरुषः पत्नीं शतरूपामयोनिजाम् ॥ १ ॥ आप-
वस्य महिम्ना तु दिवमादृत्य तिष्ठतः । धर्मैशैव महाराज शत-
रूपा व्यजायत ॥ २ ॥ सा तु वर्षायुतं तप्त्वा तपः परमदुश्च-
रम् । भर्तारं दीप्ततपसं पुरुषं प्रत्यपद्यत ॥ ३ ॥ स वै
स्वार्यंभुवस्तात पुरुषो मनुरुच्यते । तस्मैकसप्ततियुगं मन्वन्तर-
मिहोच्यते ॥ ४ ॥ वैराजात् पुरुषाद्वीरं शतरूपा व्यजा-

इसमेंकी सब प्रजा अयोनिज है ॥४५॥ इस आदि सर्गको जान
कर पुरुष आयुष्मान् कीर्तिमान् धनवान् प्रजावान् और शास्त्र
सम्पन्न होकर मन चाही गति पाता है ४६ प्रथम अध्याय समाप्त

वैशम्पायनजीने कहा, कि-इसप्रकार (अयोनिज) प्रजाकी
सृष्टि होनेके अनन्तर आपव नामक प्रजापतिने शतरूपा नाम
वाली अयोनिजा स्त्रीको (पत्नीरूपसे) प्राप्त किया ॥ १ ॥
आपवके महत्त्वयुक्त योगज पुण्यसे मनु और शतरूपा स्वर्गमें
व्याप्त होगए और शतरूपा (अनेक रूप धारण करने वाली)
होगई (यह सामर्थ्य भी आपवकी ही थी क्योंकि-आपव ही
अपने आधे शरीरसे नारी बन गए थे) ॥२॥ वह शतरूपा एक
अयुत वर्षों तक परम दुष्कर तप करनेके अनन्तर मदीस तप
वाले अपने पति पुरुषके पास गई ॥३॥ हे तात ! उन पुरुषको
स्वार्यंभुव मनु कहते हैं और उनके इकहत्तर चौकड़ी युगोंको
मन्वन्तर कहते हैं ॥ ४ ॥ वैराज पुरुषसे शतरूपाने वीर नामक
पुत्रको उत्पन्न किया और वीरसे काम्याने प्रियव्रत और उत्तान-

पत । मियत्रतोत्तानपादौ वीरात् काम्या व्यजायत ॥ ५ ॥
 काम्या नाम महाबाहो कर्दमस्य प्रजापतेः । काम्या पुत्रास्तु
 चत्वारः सम्राट् कुन्तिर्विगट् प्रभुः । मियत्रतं समासाद्य पतिं सा
 सुपुत्रे सुतान् ॥ ६ ॥ उत्तानपादं अग्राह पुत्रमग्निः प्रजापतिः ।
 उत्तानपादाच्चतुरः सूनृताऽजनयत् सुतान् ॥ ७ ॥ धर्मस्य कन्या
 सुश्रोणी सूनृता नाम विश्रुता । उत्पन्ना वाजिमेषेन ध्रुवस्य
 जननी शुभा ॥८॥ ध्रुवं च कीर्तिमन्तं च शिवं शान्तमयस्पतिम् ।
 उत्तानपादोऽजनयत् सूनृतायां प्रजापतिः ॥ ९ ॥ ध्रुवो वर्णसह-
 स्राणि त्रीणि दिव्यानि भारत । तपस्तेपे महाराज प्रार्थयन् सुम-
 हद्यशः ॥ १० ॥ तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतः स्थानमप्रतिमं भुवि ।
 पाद नामक पुत्रोको उत्पन्न किया (वायुपुराणोक्त वसिष्ठकी
 पुत्री वीरकी पत्नी और उदारबुद्धि मियत्रतकी माता काम्या
 और है और मियत्रतकी भार्या कर्दमकी पुत्री काम्या और है
 और उसने जिन पुत्रोंको उत्पन्न किया था उनको कहते है,
 कि-) ॥५॥ प्रजापति कर्दमकी पुत्रीको काम्या नाम था हे महा-
 भुज ! उस काम्याके सम्राट् विराट् कुन्ति और प्रभु नामक चार
 पुत्र थे उसने मियत्रत पतिको पाकर इन पुत्रोंको उत्पन्न किया
 था ॥ ६ ॥ प्रजापति अग्निने उत्तानपादको पुत्ररूपसे ग्रहण कर
 (गोदले) लिया और उत्तानपादसे सूनृताने चार पुत्रोंको उत्पन्न
 किया ॥ ७ ॥ यह सूनृता नामसे प्रसिद्ध सुश्रोणी स्त्री धर्मकी
 कन्या थी और धर्मने उसको अश्वमेध यज्ञ करके उत्पन्न किया
 था और यह शुभा ध्रुवकी माता थी ॥८॥ प्रजापति उत्तानपाद
 ने सूनृतामें शान्तस्वरूप ध्रुव कीर्तिमान् शिव और अयस्पति
 नामक (चार) पुत्रोंसे उत्पन्न किया ॥ ९ ॥ हे भरतवंशी
 राजन् ! ध्रुवने विष्णुकी प्रार्थना करते हुए तपके तीन सहस्र
 दिव्य वर्ष बिना दिये थे ॥ १० ॥ तब प्रजा (ब्रह्मा आदि)

अचलं चैव पुरतः सप्तर्षीणां मजापतिः ॥ ११ ॥ तस्यातिमात्रा-
 मृद्धिं च महिमानं निरीक्ष्य सः । देवासुराणामाचार्यः श्लोकं गा-
 शेना जगौ ॥ १२ ॥ अहोस्य तपसो वीर्यमहो श्रुतमहो बलम् ।
 यदेनं पुरतः कृत्वा ध्रुवं सप्तर्षयः स्थिताः ॥ १३ ॥ तस्माच्छ-
 लिष्टिं च भव्यं च ध्रुवाच्छम्भुर्व्यजायत । श्लिष्टेराधत्त सुच्छाया
 पञ्च पुत्रानकल्मषान् ॥ १४ ॥ रिपुं रिपुञ्जयं पुण्यं वृकलं वृक-
 तेजसम् । रिपोराधत्त बृहती चाक्षुषं सर्वतेजसम् ॥ १५ ॥
 अजीजनत् पुष्करिण्यां वीरण्यां चाक्षुषो मनुम् । मजापतेरात्म-

के पति ब्रह्मा (त्रिपुण्ड्र) ने प्रसन्न होकर ध्रुवको सप्तर्षियोंके
 ऊपर अप्रतिम और अचल स्थान दिया था ॥ ११ ॥ उसकी इस
 बड़ी भारी अट्टि और महिमाको देवकर देवता और असुरोंके
 आचार्य शुकाचार्यने इस श्लोकको गाया था (यहाँ पर शुक्रको
 जो देवताओंका आचार्य बताया है वह कचको लक्ष्य करके कहा
 है अथवा मैत्रायणीकी निम्नलिखित श्रुतिको ध्यानमें रखकर
 यह बात कही है, यथा—“बृहस्पतिर्हि शुक्रो भूत्वेन्द्रस्याभयाया
 सुरेभ्यः क्षयायेमामविद्यामसृजत्—अर्थात् बृहस्पतिने शुकुरूपसे
 उत्पन्न होकर इन्द्रके अभयके लिये और असुरोंके क्षयके
 लिये अविद्याको रचा था’) ॥ १२ ॥ कि-अहो ! इसके तप
 का कैसा प्रभाव है, इसके श्रुत और बलको धन्य है, कि-जो
 सप्तर्षि भी इमको अपने ऊपर स्थापित कर रहे है ॥ १३ ॥
 उस ध्रुवसे शंशु नामवाली स्त्रीमें श्लिष्टि और भव्य नाम वाले
 पुत्रोंको उत्पन्न किया, श्लिष्टिसे सुच्छाया नाम वाली स्त्रीने रिपु
 रिपुञ्जय पुण्य वृकल और वृकतेजा नाम वाले पाँच पुत्रोंको
 उत्पन्न किया था, बृहती नाम वाली स्त्रीने रिपुसे पूर्ण तेज
 वाले चाक्षुष नामक पुत्रको उत्पन्न किया था ॥ १४-१५ ॥
 और वीरणकी पुत्री पुष्करिणीमें चाक्षुषने मनुको उत्पन्न किया

धिंताः प्रजाः ॥ ३० ॥ प्राचीनाग्राः कुशास्नस्य पृथिव्यां जनमे-
जय । प्राचीनवर्हिर्भगवान् पृथिवीतलचारिणः ॥ ३१ ॥ समुद्र-
तनयायान्तु कृतदारोऽभवत् प्रभुः । महत्स्नपसः पारे सवर्णायां
महीपतिः ॥ ३२ ॥ सवर्णाश्च सामुद्री दश प्राचीनवर्हिपः ।
सर्वे प्रचेतसे नाम धनुर्वेदस्य पारगाः ॥ ३३ ॥ अपृथग्धर्मवर-
णास्नेऽतप्यन्त महत्तपः । दशवर्षसहस्राणि समुद्रसलिलेशयाः ३४
तपश्चरत्सु पृथिवीं प्रचेतस्तु महीरुहाः । अरक्ष्यमाणापाद्युर्वभू-
वाय प्रजाक्षपः ॥ ३५ ॥ नाशकमारुतो वातुं व्रतं स्वमभगद् द्रुमैः ।
दशवर्षसहस्राणि न शेकुश्चेष्टितुं प्रजाः ॥ ३६ ॥ तदुपश्रुत्य तपसा
युक्ताः सर्वे प्रचेतसः । मुखेभ्यो वायुमग्निं च समुज्जुर्जातमन्यवः ३७

पिता इतिरानसे भी बड़े भारी प्रजापति हुए थे, हे महाराज ।
उन्होंने प्रजाओंको बड़ाया था ॥ ३० ॥ हे जनमेजय ! उसके
(समयसे) कुशा पृथ्वीमें पूर्वकी ओर अग्रभाग करके रक्ते
जाते हैं, सब पृथिवीमें ऐसा ही होता है अन एव वह भगवान्
प्राचीनवर्हि कहलाते हैं ॥ ३१ ॥ उन महीपति प्रभुने बड़ा भारी
तप करनेके अनन्तर समुद्रकी पुत्री सवर्णासे विवाह किया था ३२
समुद्रकी पुत्री सवर्णासे प्राचीनवर्हिसे दश पुत्रोंको उत्पन्न किया
था, उन सबका प्रचेता नाम था और वे सब धनुर्वेदके पारगापी
थे ॥ ३३ ॥ उन समुद्रके जलमें शयन करने वालोंने एकसी
रीतिके धर्मका और शीतका पालन करते हुए दश सहस्र वर्ष
तक वीर तप किया था ॥ ३४ ॥ जिस समय प्रचेता तप कर रहे
थे उस समय प्रजाकी कोई रक्षा नहीं करता था (यह देख कर)
दृत्तोंने (आरूगको) घेर लिया, न प्रजाका क्षय होने लगा ३५
उस समय आकाश दृत्तोंसे व्या रहा था, इस लिये पवन चल
नहीं सका इस कारण दश सहस्र वर्ष तक प्रजा चेश न कर
सकी ॥ ३६ ॥ तब प्रचेताओंने अपनी ज्ञानदृष्टिसे इस बातको

उन्मूलानथ तान् कृत्वा वृत्तान् वायुरशोपयत् । तान्गिनरददद्
घोर एवमासीद्रुमक्षयः ॥ ३८ ॥ द्रुमक्षयमथो बुद्ध्वा किञ्चिच्छि-
ष्टेषु शाखिषु । उपगम्याववीदेतान् राजा सोमः प्रजापतीन् ३९
कोपं यच्छत राजानः सर्वे प्राचीनवर्हिपः । वृत्तशून्या कृता पृथ्वी
शाम्येतामग्निमारुता ॥ ४० ॥ रत्नभूता च कन्येयं वृत्ताणां चर-
वर्णिनी । भविष्यं जानता तत्त्वं धृता गर्भेण वै मया ॥ ४१ ॥
गारिषा नाम कन्येयं वृत्ताणामिति निर्मिता । भार्या वोऽस्तु महा-

जान कर क्रोधमें भर कर अपने मुखसे वायु और अग्निको रव
कर बाहर निकाला ॥ ३७ ॥ तब वायुने उन वृत्तोंको उखाड़
कर फेंक दिया और उनको सुखाडाला फिर अग्निने प्रचण्ड
होकर उन वृत्तोंको जलाना आरम्भ कर दिया, इस प्रकार वृत्तों
का क्षय होने लगा ॥ ३८ ॥ इस वृत्तक्षयको देख कर जब थोड़े
से वृत्त रह गए थे उस समय वृत्तोंके राजा सोमने प्रजापति
प्रचेताओंके पास जा कर कहा कि-॥ ३९ ॥ हे प्राचीनवर्हिके
समर्थ प्रचेताओं ! तुम अपने कोपको रोको, पृथिवी वृत्तसे शून्य
(सी) होगई है, अत एव तुम अग्नि और पवनको शान्त करो ४०
यह चरवर्णिनी वृत्तोंकी कन्या रत्नस्वरूप है, मैंने भविष्यके
तत्त्वको जान कर इसको अपने गर्भमें स्थापित किया था (वायुने
वृत्तोंका शोषण करते समय उनका जलीय अंश अपने कारण
सूर्यमें डाल दिया था और पार्थिव सारांश जलमय सोममें डाल
दिया था इस प्रकार कन्यारूप वृत्तमय वीर्य सोमके गर्भमें था, यह
ठीक ही है । और 'वृष्टिर्वै वृष्ट्या चन्द्रमसमनुप्रविशति' वृष्टि वर्ष कर
चन्द्रमामें प्रवेश कर जाती है इस श्रुतिसे भी वृष्टिका औपधसार-
रूपसे चन्द्रमामें प्रवेश करना उचित ही है, इस लिये चन्द्रमाका
यह कहना ठीक ही है, कि-मैंने वृत्तोंकी इस कन्याको अपने गर्भ
में धारणकर लिया था) ॥ ४१ ॥ वृत्तों (के वीर्य) की वनी

भागा सोमवंशविवर्धिनी ॥४२॥ युष्माकं तेजसोऽर्थेन मम चार्धेन
 तेजसा । अस्यामुत्पत्स्यते पुत्रो दत्तो नाम प्रजापतिः ॥ ४३ ॥
 य इमां दग्धभूषिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन वै । अग्निनाऽग्निसमो भूयः
 प्रजां संवर्धयिष्यति ॥४४॥ ततः सोमस्य वचनाज्जगृह्णस्ते प्रचे-
 तसा । संहृत्य कौपं वृत्तेभ्यः पत्नीं धर्मेण मारिषाम् ॥ ४५ ॥
 मारिषायां ततस्ते वै मनसा गर्भमादधुः । दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो
 मारिषायां प्रजापतिः । दत्तो जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन
 भारत ॥ ४६ ॥ पुत्रानुत्पादयामास सोमवंशविवर्धनान् ।
 अचरांश्च चरांश्चैव द्विपदेऽथ चतुष्पदः । स दृष्ट्वा मनसा
 दत्तः पश्चादप्यसृजत् स्त्रियः ॥४७॥ ददौ स दश धर्माय कश्य-
 पाय त्रयोदश । शिष्टाः सोमाय राज्ञेऽथ नक्षत्राढ्या ददौ प्रभुः ४८

हुई यह मारिषा नाम वाली कन्या तुम्हारी पत्नी बने और
 हे महाभागों ! यह सोमके वंशको बढ़ावे ॥ ४२ ॥ मेरे तपके
 आधे भागसे और तुम्हारे तपके आधे भागसे इसमें दत्त प्रजा-
 पति नामक पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ४३ ॥ वह तुम्हारे तपसे
 उत्पन्न हुई अग्निसे बहुतसी भस्म हुई (वृत्तोंकी तथा मनुष्य
 आदिकी) प्रजाको अग्निकी समान तेजस्वी बन कर फिर बढ़ा-
 वेगा ॥ ४४ ॥ तब सोमके कहनेसे प्रचेताओंने वृत्तों पर अपने
 कोपको शांत करके विवाह विधिसे मारिषाको पत्नीरूपसे स्वी-
 कार किया ॥४५॥ हे भारत ! तब उन्होंने अपने मनसे मारिषामें
 गर्भ स्थापन किया तब सोमके तपके आधे भागसे और दश प्रचे-
 ताओं (के तपके आधे भाग) से मारिषामें महातेजस्वी प्रजा-
 पति दत्त उत्पन्न हुए ॥४६॥ उन्होंने चर और अचर तथा दो पैर
 और चार पैर वाले सोमके वंशको बढ़ाने वाले पुत्रोंको उत्पन्न
 किया और फिर उन्होंने अपने मनसे ही स्त्रियोंको भी रचा ४७
 उनमेंमे उन्होंने दश धर्मको और तेरह कश्यपको देदीं चाकी

तासु देवाः खगा नागा गावो दितिजदानवाः । गन्धर्वाप्सरस-
श्चैव जङ्घिरेऽन्याश्च जातयः ॥ ४६ ॥ ततः प्रभृति राजेन्द्र मजा
मैयुनसंभवाः । संकल्पादर्शनात् स्पर्शात् पूर्वेषां सृष्टिरुच्यते ५०
जनमेजय उवाचदेवानां दानवानां च गन्धर्वोरगरक्षसाम् । संभवः
कथितः पूर्वं दक्षस्य च महात्मनः ॥ ५१ ॥ अंगुष्ठाद् ब्रह्मणो
जातो दक्षः प्रोक्तस्तयाऽनघ । वामांगुष्ठात्तथा चैव तस्य पत्नी
व्यजायत ॥ ५२ ॥ कथं प्राचेतसत्वं सः पुनर्लभे महातपाः ।
एतन्मे सशयं विम सम्यगाख्यातुमर्हसि । दौहित्रश्चैव सोमस्य
कथं शृणु रता गतः ॥ ५३ ॥ वीशम्पायन उवाच । उत्पत्तिश्च

नक्षत्र नाम १० वी कन्याएँ राजा सोमके लिये देदी । ४८ ।
उनमें देवता पत्नी १० गौ दैत्य दानव गन्धर्व और अप्सरा
तथा दूसरी जातियें उत्पन्न हुई । ४९ । हे राजेन्द्र ! उस दिनके
अनन्तर मैयुनी मजा उत्पन्न होई लगी, इससे पहिले प्राणियोंकी
सृष्टि मानसिक संकल्प दर्शन और दर्शनसे होती थी (दश
प्रचेताओंके एक औरस पुत्र कैसे होसकता है ? इस शंकाका
इसमें समाधान किया है, क्योंकि संकल्पके एक रूप होनेसे सबका
एक औरस दत्त पुत्रहोना युक्त है) ॥ ५० ॥ जनमेजयने कहा,
कि आपने पहिले देव दानव गन्धर्व सर्प राक्षस और महात्मा
दक्षकी उत्पत्ति कही ५१ हे अनघ ! आपने कहा था कि-ब्रह्मा-
जीके (दाहिने) अंगूठेसे दत्त उत्पन्न हुए थे और उनके बायें
अंगूठेसे उनकी पत्नी उत्पन्न हुई थी (अर्थात् एकसे उत्पन्न
हुए स्त्री पुरुषोंमें दाम्पत्य सम्बन्ध कैसे हुआ यह प्रथम शंका
है) ५२ (दत्त ब्रह्माजीके पुत्र थे) तो वह महातपा प्रचेताओं
के पुत्र किस प्रकार हुए (यह दूसरी शंका है) हे विष् ! मेरे
इस सन्देहको आप भलीपकार दूर करिये और मेरे इस सन्देहमें
भी आप दूर करिये कि दत्त तो सोमके धेवते थे, फिर वे उनके

भागा सोमवंशविध्विनी ॥४२॥ युष्माकं तेजसोऽर्थेन मम चार्धेन
 तेजसा । अस्यामुत्पत्स्यते पुत्रो दत्तो नाम प्रजापतिः ॥ ४३ ॥
 य इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन वै । अग्निनाऽग्निसमो भूयः
 प्रजा संवर्धयिष्यति ॥४४॥ ततः सोमस्य वचनाज्जगृहुस्ते प्रचे-
 तसा । संहृत्य कोपं वृत्तेभ्यः पत्नीं धर्मेण मारिषाम् ॥ ४५ ॥
 मारिषायां ततस्ते वै मनसा गर्भमादधुः । दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो
 मारिषायां प्रजापतिः । दत्तो जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन
 भारत ॥ ४६ ॥ पुत्रानुत्पादयामास सोमवंशविध्विनान् ।
 अचरांश्च चरांश्चैव द्विपदेऽथ चतुष्पदः । स दृष्ट्वा-
 दत्तः पश्चादप्यसृजत् स्त्रियः ॥४७॥ ददौ स दश-
 पाय त्रयोदश शिष्टाः सोमाय राज्ञेऽथ नक्षत्रानि नित्यं है अर्थात्

हुई यह मारिषा नाम वाली कन्या का नियमके बिना प्रजात्पा-
 हे महाभागों ! यह सोमके वंशधरे, और मनुष्योंमें इस बातका
 आधे भागसे और तुम्हारे ही पर "असपिण्डासुद्वहेत्-असपिण्डा
 पति नामक पुत्र-यह नियम नित्य है । इस बातको जान कर
 उत्पन्न-विद्वान् यहाँ (देवताओंके विषयमें) मोहमें नहीं पड़ते
 ५४ और यह दत्त आदि राजे पूत्येक युगमें होने हैं और फिर
 लीन होजाते हैं, इस लिये विद्वान् मोहमें नहीं पड़ते हैं (अर्थात् दत्त
 प्रचेताओंके पुत्र दूसरे युगमें हुए हैं और ब्रह्माजीके पुत्र दूसरे
 युगमें हुए हैं) ५५ और हे जनाधिप ! इनमें पहिले ज्येष्ठता
 और कनिष्ठताका विचार नहीं था, इनके छोटे और बड़े होनेमें
 तप और प्रभाव, ऐश्वर्य ही) कारण माना जाता था ५६ जो
 पुरुष दत्तकी इस चर और अचर उत्पत्तिको जानता है वह
 सन्तानवान् होता है और आयु बीतने पर स्वर्गलोकमें पूजा
 पाना है ॥ ५७ ॥ द्वितीय अध्याय समाप्त । २ ।

जनमेजयने कदा, कि हे वैशम्पायन! आप मुझसे देव दानच

तासु देवाः खगा नागा गावो दितिजदानवाः । गन्धर्वाप्सरस-
 श्चैव जज्ञिरेऽन्याश्च जातयः ॥ ४६ ॥ ततः प्रभृति राजेन्द्र प्रजा
 मैथुनसंभवाः । संकल्पादर्शनात् स्पर्शात् पूर्वेषां सृष्टिरुच्यते ५०
 जनमेजय उवाचादेवानां दानवानां च गन्धर्वोरगरत्तसाम् । संभवः
 कथितः पूर्वं दत्तस्य च महात्मनः ॥ ५१ ॥ अंगुष्ठाद् ब्रह्मणो
 जातो दत्तः शोक्तस्त्वयाऽनघ । वामांगुष्ठात्तथा चैव तस्य पत्नी
 व्यजायत ॥ ५२ ॥ कथं प्राचेतसत्वं सः पुनर्लेभे महातपाः ।
 एतन्मे सशयं विप्र सम्पगाख्यातुमर्हसि । दौहित्रश्चैव सोमस्य
 कर्गोभाः परता गतः ॥ ५३ ॥ चौशम्पायन उवाच । उत्पत्तिश्च
 महती लोकी-
 नी कन्याएँ राजा सोमके लिये देदी । ४८ ।
 वीर्यवान् । असिनी-
 गा गौ दैत्य दानव गन्धर्व और अप्सरा
 तांस्तु दृष्ट्वा महाभागान्-
 हई । ४६ । हे राजेन्द्र ! उस दिनके
 गन्धर्व सर्प और राक्षसोंकी इस डे' लगी, इससे पहिले प्राणियोंकी
 म्पायनने कहा, कि-हे राजन् ! पहिले रर्गनसे होती थी (दश
 प्रजाको रच ऐसी आज्ञा देने पर दत्तने जि- है ? इस शंकाका
 रचा था उसको आप सुनिये-प्रभु दत्तने पहिले ऋषि-ने सबका
 गन्धर्व राक्षस यज्ञ भूत पिशाच पशु पक्षी सर्पोंकी मानसी सृ-
 रची-परन्तु बुद्धिमान् भगवान् महादेजीके अपध्यान(यह न बड़ें)
 करनेसे जब दत्तकी मानसी प्रजा न बड़ी (पूर्वकल्पके दत्तके दैर
 के कारण महादेवजीने ऐसा किया था) ४ तब प्रजापतिने प्रजावे
 उत्पन्न करनेके लिये फिर विचार किया फिर मैथुनधर्ममे नाना-
 प्रकारकी प्रजाको रचनेकी इच्छा वाले प्रजापतिने प्रजापति वीरण
 की तप करने वाली महत्त्वमयी लोकधारिणी पुत्री, असिनीके
 साथ विवाहकिया ५ तब दत्तप्रजापतिने वीरणकी पुत्री असिनीमें
 पाँच सहस्र वीर्यवान् पुत्रोंको उत्पन्न किया ७(ज्ञानाधिकारियोंसे)
 प्रिय सम्वाद करने वाले देवर्षि नारदजी उन महाभाग्यवानोंको

सम्वादे नारदः पात्रवीदिदम् । नाशाय वचनं तेषां शापायैवा-
त्मनस्तथा ॥८॥ यं कश्यपः सुतवरं परमेष्ठी व्यजीजनत् । दत्तस्य
वै दुहितरि दत्तशापभयान्मुनिः ॥ ९ ॥ पूर्वं स हि समुत्पन्नो
नारदः परमेष्ठिना । असिक्न्यामथ वीरण्यां भूयो देवर्षिसत्तमः ।
तं भूयो जनयामास पितेव मुनिपुङ्गवम् ॥ १० ॥ तेन दत्तस्य
पुत्रा वै हर्यश्वा इति विश्रुताः । निर्मध्य नाशिताः सर्वे विधिना
च न संशयः ॥११॥ तस्योद्यतस्तदा दत्तो नाशायामितविक्रमः ।
महर्षान् पुरतः कृत्वा याचितः परमेष्ठिना ॥१२॥ ततोभिसन्धि
चक्रुस्ते दत्तस्तु परमेष्ठिना । कन्यायां नारदो मह्यं तव पुत्रो भवे-
दिति ॥ १३ ॥ ततो दत्तस्तु तां प्रादात् कन्यां वै परमेष्ठिने ।
संतस्यां नारदो जज्ञे दत्तशापभयादृषिः ॥१४॥ जनमेजय उवाच ।

प्रजा वृद्धानेकी इच्छा करते देख कर उनका नाश करनेके लिये
और अपने आप शाप पानेके लिये उनसे यह बात कहने लगे ॥८॥
ब्रह्माजीने जिस श्रेष्ठ पुत्रको उत्पन्न किया था दत्तके शापके
भयसे कश्यपमुनिने उन नारदको दत्तकी (स्त्रीकी वहिन) पुत्री
में फिर उत्पन्न किया था ॥ ९ ॥ पहिले यह नारद ऋषि पर-
मेष्ठी पूजापतिसे उत्पन्न हुए थे, तदनन्तर देवर्षियोंमें श्रेष्ठ कश्यप
ने वीरणकी पुत्री असिक्नीमें पितामहकी समान मुनिश्रेष्ठ नारद
जीको फिर उत्पन्न (होनेके लिये मेरणा की थी) किया था १०
उन्होंने दत्तके हर्यश्व नामसे प्रसिद्ध पुत्रोंके शास्त्रीयमार्गसे देहा-
भिमानसे च्युत करके नष्ट कर डाला था, इसमें कुछ सन्देह नहीं
है ॥ ११ ॥ तब अमित पराक्रमी तथा नारदजीका नाश करने
का उद्यत होगा, तब ब्रह्माजीने महर्षियोंको मध्यस्थ बनाकर
उनमें याचना की थी ॥ १२ ॥ तब उन्होंने विचार किया और
दत्तने कहा कि- तुम्हारा पुत्र मेरी कन्यामें उत्पन्न हो ॥ १३ ॥
तब दत्तने अपनी कन्या परमेष्ठी (ब्रह्माजी) को देदी, तब

कथं विनाशिताः पुत्रा नारदेन महर्षिणा। पूजापतेर्द्विजश्रेष्ठ श्रोतु-
मिच्छामि तत्त्वतः ॥ १५ ॥ वैशम्पायन उवाच । दत्तस्य पुत्रा
हर्यश्वा विवर्द्धयिषवः पूजाः । समागता महावीर्या नारदस्तातु-
वाच ह ॥ १६ ॥ वालिशो वतः पूयं वे नास्या जानीथ वै भुवः ।
प्रमाणं स्रष्टुकामाः स्थ प्रजाः प्राचेतसात्मजाः । अन्तरूर्ध्वमधश्चैव
कथं सद्यथ वै प्रजाः ॥ १७ ॥ ते तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रयाताः
सर्वतोदिशम् । प्रमाणं द्रष्टुकामास्ते गताः प्राचेतसात्मजाः १८
वायोरनशनं प्राप्य गतास्ते वै पराभवम् । अद्यापि न निवर्तन्ते
समुद्रेभ्य इवापगाः ॥ १९ ॥ हर्यश्वेष्वथ नष्टेषु दत्तः प्राचेतसः

नारदजी दत्तके शापके भयसे उसमें उत्पन्न हुए थे ॥ १४ ॥
जनमेजयने कहा, कि-हे द्विजश्रेष्ठ ! पूजापति दत्तके पुत्रोंको महर्षि
नारदने किसप्रकार नष्ट किया था, इसको मैं स्पष्टरूपमें सुनना
चाहता हूँ ॥ १५ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-जब दत्तके
महावीर्यवान् हर्यश्वा नामक पुत्र पूजाको बढ़ानेकी इच्छासे आये
तब नारदजीने उनसे कहा कि-॥ १६ ॥ हे पचेताके पुत्रों !
तुम पूजाको रचना तो चाहते हो, परन्तु हे वालिशों ! तुम पृथ्वी
के प्रमाणको तो जानते ही नहीं हो अर्थात् तुम पपञ्चके साधक
चिदात्माको वह ऊपर नीचे अथवा भीतर सर्वत्र यह नहीं जानते
अतः तुम्हें पूजाकी सृष्टि करनेका अधिकार नहीं है ॥ १७ ॥
तब वे पचेताके पुत्र सब दिशाओंकी ओर (अलग-अलग) मुख करके
(अन्योन्य निरपेक्ष होकर) आत्मदर्शन करनेके लिये चले गए १८
और सूत्रात्मा वायुको समाधिके बलसे जीतकर अशन आदिसे
अतीत शुद्ध ब्रह्मको प्राप्त होकर पराभव (आत्यन्तिक कैवल्य)
प्राप्त होगए और समुद्रकी ओर जाने वाली नदियोंकी समान
अभी तक पीछेकी नहीं लौटे हैं ॥ १९ ॥ पचेताके पुत्र मधु
दत्त प्रजापतिने हर्यश्वोंके नष्ट होने पर वीरणकी पुत्रीमें सहस्र

पुनः । वैरिण्यामेव पुत्राणां सहस्रमसृजत् प्रभुः ॥ २० ॥ विव-
 र्द्धयिषवस्ते तु शबलाश्वाः प्रभास्तदा । पूर्वोक्तं वचनं तात नार-
 देनैव नोदिताः ॥ २१ ॥ अन्योन्यमूचुस्ते सर्वे सम्यगाह महा-
 मुनिः । भ्रातॄणां पदवीं ज्ञातुं गन्तव्यं नात्र संशयः ॥ २२ ॥
 ज्ञात्वा प्रमाणं पृथ्व्याश्च सुखं स्रज्यामहे-प्रजाः।एकाग्रः स्वस्थ-
 मनसा यथावदनुपूर्वशः ॥ २३ ॥ तेपि तेनैव मार्गेण प्रयाताः
 सर्वतो दिशम् । अद्यापि न निवर्तन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः ॥२४॥
 नष्टेषु शबलाश्वेषु दत्तः क्रुद्धोऽवदद्वचः । नारदं नाशमेहीति
 गर्भवासं वसेति च ॥ २५ ॥ तदा प्रभृति वै भ्राता भ्रातुरन्वे-
 षेणे नृप । प्रयातो नश्यति क्षिप्रं तन्न कार्यं विपश्चिता ॥ २६ ॥

पुत्रोंको फिर उत्पन्न किया ॥ २० ॥ जब वे दत्तके पुत्र शब-
 लाश्व प्रजाकी वृद्धि करना चाहने लगे, तब नारदजीने पूर्वोक्त
 वचन कह कर उनको भी जानेके लिये उकसाया ॥ २१ ॥
 तब उन्होंने कहा, कि-महामुनि नारदजीने ठीक ही कहा है और
 अपने भाइयोंके मार्गको जाननेके लिये हमें भी अवश्य प्रयत्न
 करना चाहिये ॥ २२ ॥ हम पृथिवीके परिमाणको जानकर
 अर्थात् जिससे पूषञ्च होता है उस चिदात्माके ऊर्ध्व अधः और
 अन्तर्यामीपनको जानकर एकाग्र और स्वस्थ मन वाले, होकर
 ठीक २ रीतिसे सुखपूर्वक पूजाको रचेंगे ॥२३॥ (यह विचार
 कर) वे भी उसी मार्गसे चारों दिशाओंकी ओर मुख करके
 चले गए और समुद्रगामिनी नदियोंकी समान अभी तक नहीं
 लौटे हैं ॥ २४ ॥ शबलाश्वोंके बह होजाने पर दत्त पूजापतिने
 क्रोधमें भर नारदजीसे कहा, कि-तुम नष्ट होजाओ और गर्भमें
 घास करो ॥ २५ ॥ हे नृप ! उस दिनसे जो भाई भाईको
 दूढ़नेके लिये जाता है वह नष्ट होजाता है अतः विद्वानोंको यह
 न करना चाहिये ॥ २६ ॥ हमने सुना है, कि-अपने उन पुत्रों

तांश्चापि नष्टान् विज्ञाय पुत्रान् दत्तः प्रजापतिः । पष्टिं भूयोऽष्ट-
 जत्कन्या वीरण्यामिति नः श्रुत् ॥ २७ ॥ तास्तदा प्रतिजग्राह
 भार्यायै करयपः मभुः।सोमो धर्मश्च कौरव्य तथैवान्ये महर्षयः२८
 ददा स दश धर्मयि करयपाय त्रयोदश । सप्तविंशति सोमाय
 चतस्रो रिष्टनेमिने ॥२९॥ द्वे चैव भृगुपुत्राय द्वे चैवाङ्गिरसे तथा ।
 द्वे कृशाश्वाय त्रिदुपे तासां नामानि मे शृणु ॥३०॥ अरुन्धती
 वसुर्यामी लम्बा भानुर्महत्वाती । संकल्पा च मुहूर्ता च साध्या
 विरवा च भारत । धर्मपत्न्यो दश त्वेतास्तास्वपत्यानि मे शृणु ३१
 विश्वे देवाश्च विश्वायाः साध्यान् साभ्या व्यजायत । महत्वात्यां
 मरुत्वन्तो वसोस्तु वसवस्तथा ३२ भानोस्तु भानवस्तात मुहूर्ताया
 मुहूर्तजाः ॥३३॥ लम्बायाश्चैव घोषोऽथ नागवीथी च यामिजा ॥

को भी नष्ट हुआ जान कर दत्त प्रजापतिने वीरण्याकी पुत्रीमें
 फिर साठ कन्याओंको उत्पन्न किया (क्योंकि-कन्याएँ स्त्री
 होनेसे उपदेशकी पात्र नहीं थी) ॥ २७ ॥ उन (मेंसे कुछ)
 को मभु करयपने भार्याके रूपमें ग्रहण कर लिया और हे कौरव!
 धर्म तथा दूसरे महर्षियोंने भी (कुछ २ को) ग्रहण कर लिया २८
 दत्तने दश कन्याएँ धर्मको, तेरह कन्याएँ करयपको, सत्ताईस सोम
 को, चार अरिष्टनेमिन्को, दो भृगुपुत्रको, दो अंगिरसको और
 दो विद्वान् कृशाश्वको दी, उनके नामोंको मुझसे सुनो २९-३०
 हे भारत ! धर्मकी अरुन्धती वसु यामी लम्बा भानु गुल्वाती
 संकल्प मुहूर्ता साध्या और विश्वा नागवाली दश पत्नियों हैं,
 उनकी सन्तानोंको तुम मुझसे सुनो ३१ विश्वाके विश्वेदेवा पुत्र
 हैं, साध्याने साभ्योंको उत्पन्न किया है, महत्वातीमें महत्वान्
 उत्पन्न हुए हैं और वसुके वसु उत्पन्न हुए हैं और हे तात !
 भानुके भानु उत्पन्न हुए हैं और मुहूर्ताके मुहूर्तज (क्षण लव
 आदि कालके अभिमानी देवता) उत्पन्न हुए हैं ॥३२॥३३॥

पृथिवी विषयं सर्वमरुन्धत्यां व्यजायत ॥ ३४ ॥ संकल्पायास्तु
 सर्वात्मा जज्ञे संकल्प एव हि । नागवीथ्याश्च जामिन्या वृषलम्बा
 व्यजायत ॥३५॥ या राजन् सोमपत्न्यस्तु दत्तः प्राचेतसो ददौ ।
 सर्वा नक्षत्रनाम्न्यस्ता ज्योतिषे परिकीर्तिताः ॥ ३६ ॥ ये त्वन्ये
 ख्यातिमन्तो वै देवा ज्योतिःपुरोगमाः । वसवोष्टौ समाख्याता-
 स्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम् ॥ ३७ ॥ आपो ध्रुवश्च सोमश्च धर-
 श्रैवानिलानला । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवो नामभिः स्मृताः ३८
 आपस्प पुत्रो वैतण्ड्यः श्रमः शान्तो मुनिस्तथा । ध्रुवस्य पुत्रो
 भगवान् कालो लोकमकालनः ॥ ३९ ॥ सोमस्य भगवान् वर्चा
 वर्चस्वी येन जायते । धरस्य पुत्रो द्रविणो हुतहन्यवहस्तथा ।

लम्बाके घोष (मन्त्राभिमानी देवता) हुआ और यामीसे नाग-
 बीथी (स्वर्गाभिमानी देवता) उत्पन्न हुई और अरुन्धतीमें
 (घृत पशु औषध आदि) सब पृथिवीका विषय उत्पन्न हुआ
 और संकल्पसे सर्वात्मा संकल्प (मानसक्रियाभिमानी देवता)
 उत्पन्न हुआ (यहाँ आदिसे पाँच यागदेवताओंकी तदनन्तर
 क्रमशः काल मन्त्र मार्ग और हविका तथा दशवें द्रव्यत्यागरूप
 संकल्पकी सृष्टि कही है) अजवीथीसे नागवीथीमें वृषलम्बा
 (कालान्तरमें फलवृष्टि करनेवाले धर्म वा ईश्वरका अवलम्बन
 करने वाला देवता वृषलम्बा कहलाता है) उत्पन्न हुआ ३३-३५
 हे राजन् ! दत्तने सोमके लिये जो कन्याएँ दी थीं वे सब नक्षत्र
 ज्योतिषमें प्रसिद्ध हैं ॥ ३६ ॥ अब जो ज्योति आदि प्रसिद्ध
 देवता हैं और आठ वसु देवता विख्यात हैं मैं उनके विस्तारको
 कहता हूँ ॥३७॥ आप ध्रुव सोम धर अनिल प्रत्यूष और प्रभास
 (ये आठ वसु) वसु नामसे प्रसिद्ध हैं ॥३८॥ आपके वैतण्ड्य
 श्रम शान्त और मुनि नामक पुत्र उत्पन्न हुए, ध्रुवके पुत्र
 लोकको अंकुशमें रखने वाले भगवान् काल हुए ॥३९॥ सोमके

मनोहरायाः शिशरः प्राणोथ रमणस्तथा ॥ ४० ॥ अनिलस्य
 शिवा भार्या यस्याः पुत्रो मनोजवः । अविज्ञातगतिरचैव द्वौ पुत्रा-
 वनिलस्य तु ॥ ४१ ॥ अग्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे श्रिया-
 न्वितः । तस्य शाखो विशाखश्च नैगमेशश्च पृष्ठजाः ॥ ४२ ॥
 अपत्यं कृत्तिकानां तु कार्तिकेय इति स्मृतः । स्कन्दः सनत्कुमा-
 रश्च सृष्टः पादेन तेजसः ॥४३॥ प्रत्युषस्य विदुः पुत्रमृष्टिं नाम्ना
 च देवलम् । द्वौ पुत्रौ देवलस्यापि क्षमावन्तौ तपस्विनौ ॥४४॥
 बृहस्पतेस्तु भमिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी । योगसिद्धा जगत्
 कृत्स्नमसक्ता विचचार इ ॥ ४५ ॥ प्रभासस्य च सा भार्या

पुत्र भगवान् वर्चा हुए जिन (का पूजन करने) से मनुष्य वर्चस्वी
 होता है, धरके पुत्र द्रविण और हुतहव्यवह हुए, और (धर
 की दूसरी) मनोहरा भार्यासे शिशिर प्राण और रमण नामक
 पुत्र उत्पन्न हुए ॥४०॥ अनिलकी स्त्रीका नाम शिवा था उसके
 पुत्रोंका नाम मनोजव और अविज्ञात गति था, ये दो पुत्र अनिल
 के थे ॥ ४१ ॥ अग्निके पुत्र कुमार शरस्तम्ब पर शोभा पारहे
 थे उनकी पीठ पर (उनके छोटे भाई) शाख विशाख और
 नैगम उत्पन्न हुए (अर्थात् अग्निके चार पुत्र थे) ॥ ४२ ॥ उन
 सनत्कुमार स्कन्दको अग्निने अपने एक चतुर्थांशसे उत्पन्न किया
 था और वह कृत्तिकाओंकी सन्तान होनेसे कार्तिकेय कहलाते
 हैं (ज्ञानदोग्य उपनिषद्में लिखा है, कि- 'तं स्कन्द इत्याचक्षते
 अर्थात् उनको स्कन्द कहते हैं इस श्रुतिमें सनत्कुमारको ही स्कन्द
 कहा है, इससे प्रतीत होता है सनत्कुमार उनका उपनाम है) ४३
 प्रत्युषके पुत्रका नाम देवल और (पुत्रीका नाम) मृष्टि था, देवल
 के ये दोनों पुत्र और पुत्री क्षमावान् और तपस्वी थे ॥ ४४ ॥
 बृहस्पतिकी बहिन श्रेष्ठ स्त्रीका नाम ब्रह्मचारिणी था, वह योग-
 सिद्ध थी और असक्त होकर संसारमें विचरण किया करती

वमृनामष्टमस्य च । विश्वकर्मा महाभागस्तस्यां जज्ञे प्रजापतिः ४६
 कर्ता शिल्पसहस्राणां त्रिदशानां च वार्द्धकिः । भूपणानां च
 सर्वेषां कर्ता शिल्पवतां वरः ॥ ४७ ॥ यः सर्वासां विमानानि
 देवतानां चकार ह ॥ मनुष्याश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महा-
 त्मनः ॥ ४८ ॥ सुरभी कश्यपाद्द्रुद्रानेकादश विनिर्ममे । महा-
 देवमसादेन तपसा भाविता सती ॥ ४९ ॥ अजैकपादहिर्बुध्न्य-
 स्त्वष्टा रुद्राश्च भारत । त्वष्टुरचैवात्मजः श्रीमान् विश्वरूपो
 महायशः ॥ ५० ॥ हरश्च बहुरूपश्च त्र्यम्बकश्चापराजितः । वृषा-
 कपिश्च शम्भुश्च कपर्दी रैवतस्तथा ॥ ५१ ॥ मृगन्यायश्च सर्पश्च
 कपाली च विशाम्पतो एकादशैते कथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वराः ५२
 शतं त्वेवं समाख्यातं रुद्राणाममितांजसाम् । पुराणे भरतश्रेष्ठ

थी ॥ ४५ ॥ वह प्रभास नाम वाले आठवें वसुकी भार्या थी
 उसमें विश्वकर्मा नामक महाभागवान् प्रजापति उत्पन्न हुए ४३
 वह सहस्रों शिल्पोंके रचयिता हैं और देवताओंके बर्हई हैं और
 वह शिल्पियोंमें श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब भूपणोंके बनाने वाले
 हैं ॥ ४७ ॥ और उन्होंने, सब देवताओंके विमानोंको बनाया है
 और उन महात्माके शिल्पसे मनुष्य भी अपनी आजीविका चलाते
 हैं ॥ ४८ ॥ (अब कश्यप मुनिको जो तेरह कन्याएँ दीं थी उनमें
 से सुरभीकी सन्तानका वर्णन करते हैं) तपसे भावित होकर
 महादेवके प्रसाद (वर) से सुरभिने कश्यप मुनिसे ग्यारह रुद्रों
 को उत्पन्न किया था और हे भारत ! अजैकपाद अहिर्बुध्न्य
 और त्वष्टा तथा रुद्र उससे उत्पन्न हुए थे, त्वष्टाके महायशस्वी
 और श्रीमान् पुत्रका नाम विश्वरूप था ॥ ४९ ॥ ५० ॥ हे राजन् !
 हर बहुरूप त्र्यम्बक अपराजित वृषाकपि शंभु कपर्दी रैवत मृग-
 न्याय सर्प और कपाली ये तीनों भुवनोंके ईश्वर ग्यारह रुद्र कहे
 हैं ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ और हे भरतश्रेष्ठ ! पुराणोंमें इन अमित

यैर्व्याप्ताः सचराचराः ॥ ५३ ॥ लोको भरतशार्दूल कश्यपस्य
 निबोधमे । अदितिर्दितिर्दनुश्चैव अरिष्टा सुरसा खशा ॥ ५४ ॥
 सुरभिर्विनता चैव ताम्रा क्रोधवशा इरा । कद्रुर्मुनिश्च राजेन्द्र तास्व-
 पत्थानि मे शृणु ॥ ५५ ॥ पूर्वमन्वन्तरे श्रेष्ठा द्वादशासन् सुरो-
 त्तमाः । तृपिता नाम तेनोऽन्यमूचुर्वैवस्वतेऽन्तरे ॥ ५६ ॥ उपस्थिते
 तियशसि चाक्षुपस्यान्तरे मनोः । हितार्थं सर्वसत्त्वानां समागम्य
 परस्परम् ॥ ५७ ॥ आगच्छत द्रुतं देवा अदितिं संपविश्य वै ।
 मन्वन्तरे प्रमूयामस्तन्न श्रेयो भविष्यति ॥ ५८ ॥ वैशम्पायन
 उवाच । एवमुक्त्वा तु ते सर्वे चाक्षुपस्यान्तरे मनोः । मारीचात्
 कश्यापाञ्जातास्तेऽदित्या दत्तकन्यया ५९ तत्र विष्णुश्च शक्रश्च
 जज्ञाते पुनरेव हि । अर्यमा चैवधाता च स्वष्टा पूषा च भारतद०
 विवस्वान् सविता चैव मित्रा वरुण एव च । अंशो भगथाति-
 पराक्रमी रुद्रोऽकी सौ संख्या लिखी है और इनसे चराचर लोक
 व्याप्त हो रहे हैं, हे भरतशार्दूल ! अब तुम मुझसे कश्यप (की
 स्त्रियों) के नाम सुनो अदिति दिति दनु अरिष्टा सुरसा खशा
 सुरभि विनता ताम्रा क्रोधवशा इरा और कद्रु । हे राजेन्द्र !
 अब उनकी सन्तानोंको सुनो ॥ ५३-५५ ॥ पहिले चाक्षुप मन्व-
 न्तरमें तृपित नाम वाले चारुद देवश्रेष्ठ थे वे मन्वन्तरके अन्तमें
 सब प्राणियोंका हित करनेके लिये परस्पर मिल कर रहने लगे
 कि-॥ ५६ ॥ ५७ ॥ हे देवताओं ! तुम शीघ्र आओ ! हम
 अदितिमें प्रवेश करके अगले (वैवस्वत) मन्वन्तरमें उत्पन्न होंगे,
 यह बात हमारा कल्याण करेगी ॥ ५८ ॥ वैशम्पायनमुनिने
 कहा, कि-चाक्षुप मन्वन्तरके अन्तमें वे सब इस प्रकार वार्ता
 लाप करके मरीचिपुत्र कश्यप अप्सिसे दत्तकी कन्या अदितिमें
 उत्पन्न होगये ॥ ५९ ॥ उसमें फिर विष्णु इन्द्र अर्यमा धाता
 त्वष्टा पूषा विवस्वान् सविता मित्र वरुण अंश भग ये अतितेजस्वी

तेजा आदित्या द्वादश स्मृताः ॥६१॥ चाक्षुषस्यान्तरे पूर्वमासन्
 ये तृपिताः सुराः । वैवस्वतेन्तरे ते वै आदित्या द्वादश स्मृताः ६२
 सप्तविंशति याः प्रोक्ता सोमपत्न्योथ सुव्रताः । तासामपत्न्यान्यभ-
 वन् दीप्तान्यमिततेजसाम् ६३ अरिष्टनेमिपत्नीनामपत्यानीह षोडश।
 बहुपुत्रस्य विदुपरचतस्रो विद्युतः स्मृताः ॥६४॥ प्रत्यङ्गिरसजाः
 श्रेष्ठा ऋचो ब्रह्मर्षिसत्कृताः । कृताश्वस्य तु राजर्षेर्देवप्रहरणानि
 च ६५ एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव ह । सर्वदेवगणास्तात

वारह आदित्य कहे हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥ जो पहिले चाक्षुष
 मन्वन्तरमें तृपित नाम वाले देवता थे वे ही वैवस्वत मन्वन्तरमें
 वारह आदित्य हुए थे ६२ सोमकी जिन सचाईस सुव्रता पत्नियों
 का वर्णन किया है उन अमित तेज वाली स्त्रियोंकी सन्तान
 दीप्त तेजवाली हुई ॥६३॥ अनेक पुत्र वाले विद्वान् अरिष्ट नेमि
 की (विद्युत् अशनि मेघ और रोहितेन्द्रधनु) चार स्त्रियें थी
 और उनके सोलह पुत्र थे ६४ राजर्षि कृशाश्वके ब्रह्मर्षि सत्कृत
 प्रत्यङ्गिरसज श्रेष्ठ ऋचाएँ और देवप्रहण उत्पन्न हुए, (अद्विराओं
 के प्रतीपको त्याग कर अन्यत्र जाने वाले मुनि प्रत्यंगिरा कह-
 लाते हैं उनसे उत्पन्न हुई अर्थात् देखी हुई ऋचाएँ (मन्त्र)
 प्रत्यंगिरसजा कहलाती हैं, श्रुतिमें भी लिखा है, कि—“य आंगि-
 रसः शौनहोत्रो भूत्वा भार्गवशौनकोऽभवत्-अर्थात् जो आंगि-
 रस शौनहोत्र होकर भार्गव शौनक होगए थे, अथर्ववेदमें भी
 शौनकीया शाखा प्रसिद्ध है उसमें शान्ति करने वाले प्रत्य-
 ङ्गिर मन्त्र प्रसिद्ध हैं) ॥ ६५ ॥ ये कामज-कामसे उत्पन्न होने
 वाले (“सोऽकामयत् बहुस्यां प्रजायेयं वह ईश्वर काम (कामना)
 करता है कि मैं बहुतसे रूपोंमें उत्पन्न होऊँ”) पृथ्वी अग्नि
 वायु अन्तरिक्ष स्वर्ग सूर्य चन्द्रमा नक्षत्र ये वसु, बाष्पी हाथ
 पैर वायु उपस्थ ये पञ्च कर्मेन्द्रिये और पाँच ज्ञानेन्द्रिये तथा

त्रयस्त्रिंशत्तु कामजाः ॥ ६६ ॥ तेषामपि च राजेन्द्र-
 रुच्यते ॥ ६७ ॥ यथा सूर्यस्य गगने उत्पन्नः पौत्राश्च शत-
 निकायास्ते संभवन्ति युगे युगे -- पुत्राश्च शत-
 कश्यपादिति नः श्रुत-
 वान् ॥ ६८ ॥ ^{सिंहिके} दशसाहस्रमुच्यते ॥ ७० ॥ तेषां पुत्राश्च शत-
 राजेन्द्र-^{वृजनाभस्तथैव} च मन ये ग्यारहस्र, मासोंके अधिष्ठात्री
 शोऽथ सहस्रशोः ॥ एकचक्रो महीक्षु-^{और प्रजापति अर्थात् जीव वे भोक्त-}
 ग्यारहवाँ सर्वसाधारण-^{विद्यावणमहासुरी} ॥ ८४ ॥ स्वर्भानुर्द्विप-
 चारह आदित्य, इन्द्र-पर्जन्य-^{सूक्ष्मरचैवानिचन्द्रश्च ऊर्णनाभो}
 भोग्यात्परु ईश्वरकामज) तैत्ति-^{च केशी च शठश्च बलको मदः ।}
 वीतने पर अर्थात् प्रत्येक नवीन कल्प-^{सुरः ॥ ८६ ॥ ममदो उत्पन्न}
 होते हैं । (दूसरे देवता तो क्रतुके लिंगकी समान एक कल्पमें
 में भी अनेक बार उत्पन्न होजाते हैं) ॥ ६६ ॥ इन कामजों
 की भी निरोध और उत्पत्ति (वेदमें) कही है ॥ ६७ ॥ जैसे
 आकाशमें सूर्य उदय होता है और अस्त होजाता है इसीप्रकार
 ये देवताओंके समूह प्रत्येक युगमें उत्पन्न होते हैं ६८ (आदित्यों
 का वर्णन करनेके अनन्तर अब दैत्योंका वर्णन करते हैं) हमने
 सुना है, कि कश्यप मुनिसे दितिके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे,
 (उनमें एक) हिरण्यकशिपु और (दूसरा) वीर्यवान् हिरण्यगन्ध
 था ॥ ६९ ॥ और (कश्यप और दितिकी) सिंहिका नाम वाली
 एक कन्या भी थी यह विप्रचित्तिकी विवाही गई थी, उसके महा-
 बली पुत्र सिंहिकेय नामसे प्रसिद्ध है हे राजेन्द्र ! वे अपने गणों
 सहित दश सहस्र कहलाते हैं ॥ ७० ॥ और हे महाशुन ! उनके
 महाबली पुत्र और पौत्र सैंकड़ों और सहस्रों अर्थात् अनन्त हैं,
 अब हिरण्यकशिपुकी (सन्तान) को सुनो ॥ ७१ ॥ प्रसिद्धपरा-

तेजा आदित्या द्वादश स्मृताः ॥६१॥ चाक्षुषस्यान्तरे पूर्वमासन्
 ये तुपिताः सुराः । वैवस्वतेन्तरे ते वै आदित्या द्वादश स्मृताः ६२
 सप्तविंशति याः प्रोक्ता सोमपत्न्योथ सुव्रताः । तासामपत्न्यान्यभ-
 वन् दीप्तान्यमिततेजसाम् ६३ अरिष्टनेमिपत्नीनामपत्यानीह षोडश ।
 बहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्रो विद्युतः स्मृताः ॥६४॥ प्रत्यङ्गिरसजाः
 श्रेष्ठा ऋचो ब्रह्मर्षिसत्कृताः । कृताश्वस्य तु राजपेदे च महारणानि
 च ६५ एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव ह । सर्वदेवगणप्रतिबलो

वारह आदित्य कहे हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥ जो..खान प्रसाद्योमा-
 मन्वन्तरमें तुपिन नाम वाले देवता थे वे ही याचितो वरः ॥७७॥
 वारह आदित्य हुए थे ६२सोमकी जिन, गणास्नधा सुरा राज-
 का चर्षण किया है उन अमित तेजयान्मृताः पञ्च-विद्वांसः सुम-
 धी-तेजवाली हुई ॥६३॥ अत्थेवं भूतसन्तापनस्तथा ॥ ७६ ॥

क्रमी हिरण्यकाशपुके चार पुत्र हुए, अनुहाद न्हाद और वीर्य-
 वान् पन्हाद, उनमें चौथा संहाद था, लहादका पुत्र लहद हुआ,
 मुन्द और निमुन्द संहादके पुत्र कहलाते हैं, आयु और शिवि
 अनुहादके पुत्र हुए तथा काल भी उनका पुत्र हुआ, पन्हादका
 पुत्र विरोचन हुआ और विरोचनसे बलि उत्पन्न हुआ ७२-७४
 बलिके सौ पुत्र थे और उनमें वाण (सबसे) बड़ा था, हे नरा-
 शिप ! धृतराष्ट्र सूर्य चन्द्रमा इन्द्रनापन कुम्भनाभ गर्दभाक्त कुन्ति
 आदि (बलिके सौ पुत्र थे) इन सबमें अतिबली वाण बड़ा था
 और शिवप्रेमी था ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ पहिले कल्पमें वाणासुरने
 उपापति शिवको प्रसन्न करके वर माँगा था, कि-में आपके
 पास विदार करूँ ॥ ७७ ॥ वाणके लोहिनी नामकी स्त्रीमें इन्द्र-
 दमन उत्पन्न हुआ, हे राजन् ! उसके लाखों असुर गण थे ७८
 हिरण्यनाभके भर्भर शकुनि और भूतसन्तापन महानाभ और
 विक्रमी कालनाभ ये पाँच विद्वान् और महाबली पुत्र हुए, (अब

त्रयस्त्रिंशत्तु कामजाः ॥ ६६ ॥ तेषामपि च राजेन्द्र-
रुच्यते ॥ ६७ ॥ यथा सूर्यस्य गगने इत्यादि पौत्राश्च शत-
निकायास्ते संभवन्ति युगे युगे पुत्राश्च पौत्राश्च शत-
कश्यपादिति नः श्रुत-
वान् ॥ ६६ ॥ ७० ॥ तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शत-
त्रिंशत्सहस्रमुच्यते ॥ ७० ॥ तेषां महाबाहो हिरण्यकशिपोः शूलुः
जिच्चैव वज्रनाभस्तथैव च मन ये ग्यारहहृद्, मासोंके अग्निष्वात्री
स्तथैव च ॥ ८३ ॥ एकचक्रो महीक्षी और पञ्जापति अर्थात् जीव ये भोक्त-
चौरवानरः पुलोमा च विद्रावणमहासुरौ ॥ ८४ ॥ स्वर्भानुर्दृप-
परा च तुहुण्डश्च महासुरः । सूक्ष्मश्चैवानिचन्द्रश्च ऊर्णनाभो
महागिरिः ॥ ८५ ॥ असिलोमा च केशी च शठश्च बलको मदः ।
तथा गगनमूर्धा च कुम्भनाभो महासुरः ॥ ८६ ॥ प्रमदो मयश्च
कुपथो हयग्रीवश्च वीर्यवान् । वैश्रपः सविरूपाक्षः सुपथो हर-
हरौ ॥ ८७ ॥ हिरण्यकशिपुश्चैव शतमायुश्च शम्बरः । शरभः
दनुके पुत्र पौत्रोंका वर्णन करते हैं) दनुके तीव्र पराक्रमी सैंकड़ों
पुत्र (पौत्र) हुए वे तपस्वी और महावीर्यवान् थे उनमेंके मुख्य
मुख्योंको सुना ॥ ७६ ॥ ८० ॥ द्विमूर्धा शकुनि तथा विभु शंकुशिरा
शंकुकर्ण चिरार्धगवेष्टी तथा दुन्दुभि अयोमुख शम्बर कपिल
षामन मरीचि भगवान् इरा शंकुशिरा बृक विज्ञोभण और केतु
और केतुवीर्य शतहृद् इन्द्रजित् सत्यजित् वज्रनाभ महानाभ
और विक्रमी कालनाभ महाबाहु एकचक्र महाबल तारक वैशवा-
नर पुलोमा और विद्रावण तथा महासुर स्वर्भानु दृपपर्वा और
महासुर तुहुण्ड सूक्ष्म अनिचन्द्र ऊर्णनाभ और महागिरि असि-
लोमा केशी शठ बलक और मद तथा गगनमूर्धा और महा-
सुर कुम्भनाभ प्रमद मय कुपथ और वीर्यवान् हयग्रीव वैश्रप
सविरूपाक्ष सुपथ हर और अहर हिरण्यकशिपु शतमायु और

शलभश्चैव विप्रचित्तिश्च वीर्यवान् ॥ ८८ ॥ एते सर्वे दनोः
 पुत्राः कश्यपादभिजज्ञिरे । विप्रचित्तिप्रधानास्ते दानवाः सुमहा-
 बलाः ॥ ८९ ॥ एतेषां यदपत्यन्तु तन्न शक्यं नराधिप । प्रसं-
 ख्यातुं महीपाल पुत्रपौत्राद्यनन्तकम् ॥९०॥ स्वर्भानोस्तु प्रभा
 कन्या पुलोमश्च सुतात्रयम् । उपदानवी ह्यशिराः शर्मिष्ठा
 चार्पणवर्षणी ॥ ९१ ॥ पुलोमा कालिका चैव वैश्वानरसुते उभे ।
 यदपत्ये महावीर्ये मारीचेस्तु परिग्रहः ॥ ९२ ॥ तयोः पुत्रसह-
 स्राणि पष्टिं दानवनन्दनान् । चतुर्दशशतानन्यान् हिरण्यपुरवा-
 सिनः ॥९३॥ मारीचिर्जनयामास महता तपसाऽन्वितः । पौलोमाः
 कालकेयाश्च दानवास्ते महाबलाः ॥ ९४ ॥ अबध्या देवतानां
 च हिरण्यपुरवासिनः । कृताः पितामहेनाजौ निहताः सव्यसा-
 चिना ॥ ९५ ॥ प्रभाया नहुषः पुत्रो सृञ्जयश्च शचीसुतः । पुरं

और शम्बर शरभ शलभ और वीर्यवान् विप्रचित्ति ये सब
 दनुके पुत्र कश्यप मुनिसे उत्पन्न हुए थे, ये सब दानव
 महाबली थे और इनमें विप्रचित्ति मुख्य था ॥ ८९-८९ ॥
 हे नराधिप ! हे महीपाल ! इनकी जो पुत्र पौत्र आदि अनन्त
 सन्ताने हैं उनकी गिनती करना अशक्य है ॥९०॥ स्वर्भानुकी
 कन्या प्रभा हुई और पुलोमाके तीन कन्याएँ हुई उपदानवी
 और ह्यशिरा (तथा एक और) वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा हुई ९१
 पुलोमा और कालिका ये दोनों वैश्वानरकी पुत्रिये हैं और यह
 मारीचिके विवाही गई थी ॥९२॥ बड़े भारी तपसे युक्त मारीचि
 कश्यपने उन दोनों स्त्रियोंमें दानवोंको आनन्द देनेवाले चौंसठ
 सहस्र और चौदहसौ (६५१००) हिरण्यपुरनिवासी पुत्रोंको
 उत्पन्न किया था, उन हिरण्यपुरमें रहने वाले महाबली पौलोमा
 और कालकेय नामक दानवोंमें ब्रह्माजीने (चर देकर) देव-
 नाशोंमें भी न मारे जासकने वाले कर दिया था, उनको सव्य-

जज्ञेऽथ शर्मिष्ठा दुष्पन्तमुपदानवी ॥ ६६ ॥ ततोऽपरे महावीर्या
दानवास्त्रतिदारुणाः । सिद्धिकायामथोत्पन्ना त्रिप्रचित्तेः सुता-
स्तदा ॥ ६७ ॥ दैत्यदानवसंयोगाज्जातास्तीव्रपराक्रमाः । सैहि-
केया इति खचातास्त्रयोदश महाबलाः ॥ ६८ ॥ व्यंशः शल्यश्च
बलिर्नाभश्चैव महाबलः । चातापिर्नमुचिश्चैव इत्थलः खसृम-
स्तथा ॥ ६९ ॥ अजिको नरकश्चैव कालनाभस्तथैव च । शुकः
पोतरणश्चैव वज्रनाभश्च वीर्यवान् ॥ १०० ॥ राहुर्ज्येष्ठस्तु तेषां
वै सूर्यचन्द्रविमर्दनः । मूरुश्चैव तुहुण्डश्च हादपुत्रौ बभूवतुः १
मारीचः सुन्दपुत्रश्च ताटकायां व्यजायत । शिवमाणस्तथा चैव
सुरकल्पश्चैव वीर्यवान् ॥ २ ॥ एते वै दानवाः श्रेष्ठा दनुवंशविव-
साची अजुनने रणमे मारडाला था ॥ ६३-६५ ॥ प्रभाके नहुप
पुत्र हुआ और शचीके सृजय नामक पुत्र हुआ और शर्मिष्ठाने
पुरुको उत्पन्न किया और उपदानवीने दुष्पन्तको उत्पन्न किया ६६
इसके अतिरिक्त बहुमसे महावीर्यवान् अतिदारुण दानव सिद्धिका
में विप्रचित्तिते उत्पन्न हुए थे, फिर दैत्य दानवोंके संयोगसे
बहुतसे तीव्रपराक्रमी (त्रिप्रचित्तिके) पुत्र (पौत्र) हुए वे प्रधान
तेरह महाबली सैहिकेय नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ (उनके
नाम इस प्रकार हैं) बलवान् व्यंश और शल्य और महाबली
नाभ चातापिर् नमुचि इत्थल तथा खसृम अजिक नरक और
कालनाभ शुक और पोतरण और वीर्यवान् वज्रनाभ ६९-१००
इनमें राहु ज्येष्ठ हैं और वह सूर्य और चन्द्रमाको पीड़ा देता
रहता है, हादके मूरु और तुहुण्ड नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए
थे ॥ १०१ ॥ सुन्दके ताटकामें मारीच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ
था और इन (सुन्द और ताटका) के शिवमाण और वीर्यवान्
सुरकल्प भी उत्पन्न हुए थे ॥ १०२ ॥ ये सब दानवोंमें श्रेष्ठ
हैं और दनुके वंशका विस्तार करने वाले हैं, इनके सैकड़ों और

र्धनाः । तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ३ ॥ संह-
 दस्य तु दैत्यस्य निवातकवचाः कुले । समुत्पन्नाः सुतपसा महान्तो
 भावितात्मनः ॥४॥ तिस्रः कोट्यः सृतास्तेषां मणिमत्यां निवा-
 सिनाम् । तेऽप्यवध्यास्तु देवानामर्जुनेन निपातिताः ॥ ५ ॥ षट्
 सुताः सुमहासत्त्वास्ताम्रायाः परिकीर्तिताः । काकी श्येनी च
 भासी च सुग्रीवी शुचि गृध्रिका ॥ ६ ॥ काकी काकानजन-
 यदुलूकी प्रत्यलूककान् । श्येनी श्येनास्तथा भासी भासान
 गृध्राश्च गृध्रघृणि ॥ ७ ॥ शुचिरौदकान् पक्षिगणान् सुग्रीवी तु
 परन्तप । अश्वानुष्टान् गर्दभाश्च ताम्रावंशः प्रकीर्तितः ॥८॥
 विनतायास्तु पुत्रौ द्वावरुणो गरुडस्तथा । सुपर्णः पततां श्रेष्ठो
 दारुणः स्वेन कर्मणा ॥ ९ ॥ सुरसायाः सहस्रन्तु सर्पाणाम-
 पितौजसाम् । अनेकशिरसां तात खेचराणां महात्मनाम् ११०
 सहस्रो पुत्र हे पौत्र हे ॥ १०३ ॥ संहद नामक दैत्यके कुलमें
 भावितात्मा उदार और अचछे तपस्वी निवातकवच नामक पुत्र
 हुए ॥ १०४ ॥ उनके तीन करोड़ पुत्र थे और मणिमती नाम
 की नगरीमें रहते थे वे भी देवताओंसे अवध्य थे उनको भी
 अर्जुनेने मार डाला था ॥ १०५ ॥ ताम्राकी काकी श्येनी भासी
 सुग्रीवी शुचि और गृध्रिका नामवाली छः महान् सत्त्व वाली
 सुत्रिये थीं ॥१०६॥ काकीने काकोंको उत्पन्न किया, उलूकीने
 उलूकोंको उत्पन्न किया, श्येनीने श्येनों (बाजों) को उत्पन्न
 किया, भासीने भासोंको और गृध्रीने गृध्रोंको उत्पन्न किया,
 और हे परन्तप ! शुचिने जलीय पक्षियोंको उत्पन्न किया
 और सुग्रीवीने घोड़े ऊँट और गर्दभोंको उत्पन्न किया था, यह
 यह ताम्राका वंश कह दिया ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ विनताके अरुण
 और गरुड नामके दो पुत्र थे, अपने कर्मके कारण पक्षियोंमें
 श्रेष्ठ गरुड बड़े दारुण (मसिद्ध) हैं ॥१०९॥ सुरसाके अमित

काद्रवेयाश्च बलिनः सहस्रममितौजसः । सुपर्णवशगा नागा
 जज्ञिरेऽनेकमस्तकाः ॥ ११ ॥ तेषां प्रधानाः सततं शेषवासुकि-
 तक्षकाः । ऐरावतो महापद्मः कम्बलाश्वतराशुभौ ॥ १२ ॥ एला-
 पत्रस्तथा शंखः कर्कोटरुधनञ्जयौ । महानीलमहाकर्णौ धृतराष्ट्र-
 बलाहकौ ॥ १३ ॥ कुहरः पुष्पदंष्ट्रश्च दुर्मुखः सुमुखस्तथा ।
 शंखश्च शंखपालश्च कपिलो वामनस्तथा ॥ १४ ॥ नहुषः शंख-
 रोमा च मणिरित्येवमादयः । तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च गरुडेन
 निपातिताः ॥ १५ ॥ चतुदश सहस्राणि क्रूराणां पवनाशिनाम् ।
 गणं क्रोधवशं विद्धि तस्य सर्वे च दष्टिणः ॥ १६ ॥
 स्थलजाः पत्निषोऽञ्जाश्च धरायाः प्रसवाः स्मृताः । गास्तु वै
 जनयामस सुरभिर्महिषास्तथा ॥ १७ ॥ इरा वृत्तलतावल्ली-
 स्तृणजातीश्च सर्वशः खशा तु यत्नरत्नांसि मुनीन्ऽप्सरसस्तथा १८

पराक्रमी अनेक शिर वाले आकाशचारी सहस्रों पुत्र थे ॥ ११ ॥
 कद्रुके अमित पराक्रमी और अनेक मस्तक वाले सुपर्ण गरुडके
 वशमें रहनेवाले सौ पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनमें शेष वासुकि तक्षक
 ऐरावत महापद्म कम्बल और अश्वतर ये दोनों शंख कर्कोटक
 धनञ्जय महानील महाकर्ण धृतराष्ट्र और बलाहक कुहर पुष्प-
 दंष्ट्र दुर्मुख तथा सुमुख शंख शंखपाल कपिल वामन तथा नहुष
 शंखरोमा और मणि आदि प्रधान हैं, उनके पुत्र और पौत्रोंको
 गरुड़ने मार डाला था ॥ १११-११५ ॥ पवनका भक्षण करने
 वाले चौदह सहस्र सर्पोंका क्रोधवश नाम वाला एक गण है,
 उस गणके सब सर्प दाढ़वाले हैं ॥ ११६ ॥ स्थल और जलमें
 उत्पन्न होने वाले पत्नी धराकी सन्तान कहलाते हैं, इसीप्रकार
 सुरभिने गौ और महिषोंको उत्पन्न किया ॥ ११७ ॥ इराने
 वृत्त लता बल्ली और सब प्रकारकी घासको उत्पन्न किया और
 खशाने यत्न रत्नस और मुनि और अप्सराओंको उत्पन्न

र्धनाः । तेषां पुत्रारच पौत्रारच शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ३ ॥ संह-
 दस्य तु दैत्यस्य निवातकवचाः कुले । समुत्पन्नाः सुतपसा महान्तो
 भाविनात्मनः ॥४॥ तिस्रः कोट्यः सृतास्तेषां मणिमत्यां निवा-
 सिनाम् । तेऽप्यवध्यास्तु देवानामर्जुनेन निपातिताः ॥ ५ ॥ षट्
 सुताः सुमहासत्त्वास्ताम्रायाः परिकीर्तिताः । काकी श्येनी च
 भासी च सुग्रीवी शुचि गृध्रिका ॥ ६ ॥ काकी काकानजन-
 यदुलूकी प्रत्यलूककान् । श्येनी श्येनास्तथा भासी भासान
 गृध्रारच गृध्रयपि ॥ ७ ॥ शुचिरौदकान् पत्निगणान् सुग्रीवी तु
 परन्तप । अश्वानुष्टान् गर्दभारच ताम्रावंशः प्रकीर्तितः ॥८॥
 विनतायास्तु पुत्रौ द्वावरुणो गरुडस्तथा । सुपर्णः पततां श्रेष्ठो
 दारुणः स्वेन कर्मणा ॥ ९ ॥ सुरसायाः सहस्रन्तु सर्पाणाम-
 पितौजसाम् । अनेकशिरसां तात खेचराणां महात्मनाम् ११०
 सहस्रां पुत्रं ह्ये पौत्रं ह्ये ॥ १०३ ॥ संहद नामक दैत्यके कुलमें
 भावितात्भा उदार और अचछे तपस्वी निवातकवच नामक पुत्र
 हुए ॥ १०४ ॥ उनके तीन करोड़ पुत्र थे और मणिमती नाम
 की नगरीमें रहते थे वे भी देवताओंसे अवध्य थे उनकी भी
 अर्जुनने मारहाला था ॥ १०५ ॥ ताम्राकी काकी श्येनी भासी
 सुग्रीवी शुचि और गृध्रिका नामवाली छः महान् सत्त्व वाली
 पुत्रियें थीं ॥१०६॥ काकीने काकोंको उत्पन्न किया, उलूकीने
 उलूकोंको उत्पन्न किया, श्येनीने श्येनों (बाजों) को उत्पन्न
 किया, भासीने भासोंको और गृध्रीने गृध्रोंको उत्पन्न किया,
 और हे परन्तप ! शुचिने जलीय पत्नियोंको उत्पन्न किया
 और सुग्रीवीने घोड़े ऊँट और गर्दभोंको उत्पन्न किया था, यह
 यह ताम्राका वंश कहदिया ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ विनताके अरुण
 और गरुड नामके दो पुत्र थे, अपने कर्मके कारण पत्नियोंमें
 श्रेष्ठ गरुड बड़े दारुण (मसिद्ध) हैं ॥१०९॥ सुरसाके अमिन

काद्रवेयाश्च बलिनः सहस्रममितौजसः । सुपर्णवशगा नागा
जज्ञिरेऽनेकमस्तकाः ॥ ११ ॥ तेषां प्रधानाः सततं शोषवासुकि-
तक्षकाः । ऐरावतो महापद्मः कम्बलाश्वतरावुभौ ॥ १२ ॥ एता-
पन्नस्तथा शंखः कर्कोटरुधनञ्जयो । महानीलमहाकर्णो धृतराष्ट्र-
बलाहकौ ॥ १३ ॥ कुहरः पुष्पदंष्ट्रश्च दुर्मुखः सुमुखस्तथा ।
शंखश्च शंखपालश्च कपिलो वामनस्तथा ॥ १४ ॥ नहुषः शंख-
रोमा च मणिरित्येवमादयः । तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च गरुडेन
निपातिताः ॥ १५ ॥ चतुदश सहस्राणि क्रूराणां पचनाशिनाम् ।
गणं क्रोधवशं विद्धि तस्य सर्वे च दष्टिणः ॥ १६ ॥
स्थलजाः पक्षिणोऽञ्जाश्च धरायाः प्रसवाः स्मृताः । गास्तु चै-
जनयामस सुरभिर्महिषांस्तथा ॥ १७ ॥ इरा वृक्षलतावल्ली-
स्तृणजातीश्च सर्वशाखाश्चानु यत्नरत्नांसि मुनीन्प्सरसस्तथा १८
पराक्रमी अनेक शिर वाले आकाशचारी सहस्रौ पुत्र थे ॥ ११० ॥
कद्रुके अमित पराक्रमी और अनेक मस्तक वाले सुपर्ण गरुडके
वशमें रहनेवाले सौ पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनमें शोष वासुकि तक्षक
ऐरावत महापद्म कम्बल और अश्वतर ये दोनों शंख कर्कोटक
धनञ्जय महानील महाकर्ण धृतराष्ट्र और बलाहक कुहर पुष्प-
दंष्ट्र दुर्मुख तथा सुमुख शंख शंखपाल कपिल वामन तथा नहुष
शंखरोमा और मणि आदि प्रधान हैं, उनके पुत्र और पौत्रोंको
गरुडेने मार डाला था ॥ १११-११५ ॥ पवनका भक्षण करने
वाले चौदह सहस्र सर्पोंका क्रोधवश नाम वाला एक गण है,
उस गणके सब सर्प दाढ़वाले हैं ॥ ११६ ॥ स्थल और जलमें
उत्पन्न होने वाले पत्नी धराकी सन्तान कहजाते हैं, इसीप्रकार
सुरभिने गौ और महिषोंको उत्पन्न किया ॥ ११७ ॥ इराने
वृक्ष लता वल्ली और सब प्रकारकी घासको उत्पन्न किया और
खशाने यत्न रत्नस और मुनि और अप्सरार्योंको उत्पन्न

अरिष्टा तु महासत्त्वान् गन्धर्वानमितौजसः । एते कश्यपदायादाः
 कीर्तिताः स्थाणुजंगमाः ॥ १९ ॥ तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ
 सहस्रशः । एष मन्वन्तरे तात सर्गः स्वरोचिषे स्मृतः ॥ २० ॥
 वैवस्वते तु महति वारुणे विनते क्रतौ । जुह्वानस्य ब्रह्मणो वै
 प्रजासर्ग इहोच्यते ॥ २१ ॥ पूर्वं यत्र तु ब्रह्मर्षीनुत्पन्नान्सप्त
 मानसान् । पुत्रत्वे कल्पायामास स्वयमेव पितामहः ॥ २२ ॥ ततो
 विरोधे देवानां दानवानां च भारत । दितिर्विनिष्टपुत्रा वै तोप-
 यामास कश्यपम् ॥ २३ ॥ तां कश्यपः प्रसन्नात्मा सम्यगारा-
 धितस्तया । वरेण ह्यन्दयामास सा च वव्रे वरं ततः ॥ २४ ॥
 पुत्रमिद्वयभार्याय समर्थममितौजसम् । स च तस्यै वरं प्रादात्
 पार्थितं सुमहातपाः ॥ २५ ॥ दत्त्वा च वरमव्यग्रो मारीचस्ताम-

क्रिया ॥ ११८ ॥ और अरिष्टाने महासत्त्ववाले अगित परा-
 क्रपी गन्धर्वोंको उत्पन्न किया ये कश्यप मुनिकी स्थावर और
 जद्रम सन्तान कही ॥ ११९ ॥ इनके सौकडों और सहस्रों पुत्र
 तथा पौत्र हैं हे तात ! यह स्वरोचिष मन्वन्तर सर्ग कहा १२०
 वारुण वैवस्वत मन्वन्तरके वड़े भारी यज्ञके होते समय ब्रह्माजीको
 आहुति देनेके अवसर पर यह प्रजासर्ग कहा गया है ॥ १२१ ॥
 और तहाँ पर ब्रह्माजीने स्वयं ही अपने मनसे उत्पन्न हुए सात
 ब्रह्मर्षि पुत्रोंकी अपने पुत्ररूपसे कल्पना की थी ॥ १२२ ॥ हे
 भारत ! इसके उपरान्त देवता और दानवोंमें विरोध होनेसे
 अपने पुत्रोंके नष्ट होनेपर दितिने कश्यपको प्रसन्न किया १२३
 उसके भलीप्रकार आराधना करने पर कश्यपकी आत्मा प्रसन्न
 होगई और उन्होंने उससे वर माँगनेको कहा, तब उसने इन्द्रका
 वध करनेके लिये समर्थ और अमित पराक्रमी पुत्रके लिये वर
 माँगा, तब उन महातपस्वीने उसके माँगे हुए वरको उसे दे
 दिया ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ कश्यप मुनि उसको वर देकर विना

भाषत । भविष्यति सुतस्तेऽयं यद्येनं धारयिष्यसि ॥२६॥ इन्द्रं
 सुतो निहन्ता ते गर्भं वै शरदां शतम् । यदि धारयसे शौच-
 तत्परा व्रतमास्थिता ॥ २७ ॥ तथेत्यभिहितो भर्ता तथा देव्या
 महातपाः । धारयामास गर्भन्तु शुचिः सा वसुधाधिप ॥ २८ ॥
 ततोऽभ्युपगमदित्यां गर्भमाधाय कश्यपः । रोचयन्वै गणश्रेष्ठं
 देवानाममितौजसम् ॥ २९ ॥ तेजः संभृत्य दुर्धर्मवध्यममर-
 र्षि । जगाम पर्वतायैव तपसे संशितव्रतः ॥३०॥ तस्याश्चैवा-
 तरमेप्सुरभवत् पाकशासनः । ऊने वर्षशते चास्या ददर्शान्तर-
 मन्धुतः ॥३१॥ अकृत्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमाविशत् ।
 निद्रां च कारयामास तस्याः कुक्षिं प्रविश्य सः ॥ ३२ ॥ वज्र-
 पाणिस्ततो गर्भं संतथा तं न्यकृन्तत । स पात्यमानो वज्रोण

घवङ्गये हुए उससे कहने लगे, कि-यदि तू इस [गर्भ] को
 धारण कर सकेगी तो तेरा पुत्र इन्द्रको मारने वाला होगा, इस
 गर्भको तुझे शौचमें तत्पर होकर और व्रतको धारण करके सौ
 वर्षतक धारण-करना पड़ेगा ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ तब उस देवी
 ने अपने महातपस्वी भर्तासे “एसा ही करूँगी” कहा फिर
 हे वसुधाधिप ! उसने पवित्र होकर गर्भको धारण किया ॥१२८॥
 इसाकार अमित पराक्रमी देवताओंके गणोंको प्रकाशित
 करते हुए कश्यप जी अदितिमें गर्भको धारण कराके चलने
 लगे ॥ १२९ ॥ वह प्रशंसित तप वाले मुनि देवताओंसे भी
 अव्यय दुर्धर्म गर्भको धारण करा कर तप करनेके लिये पर्वत
 पर चले गए ॥ १३० ॥ (इधर) इन्द्र उसके चिद्रको हूँदने लगा,
 और उस अन्धुतने सौ वर्ष पूर्ण होनेसे पहिले ही उसके चिद्र
 (दोष) को देख लिया ॥ १३१ ॥ कि दिति पैर बिना धोये
 हुए शयन करनेके लिये चली गई थी, तब इन्द्रने उसकी सोखमें
 घुम कर इसको सुना दिया ॥ १३२ ॥ फिर वज्रपाणि इन्द्रने

गर्भस्तु मरुरोद ह ॥ ३३ ॥ मा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुन-
 रधान्वीत् । सोऽभवत् सप्तधा गर्भस्तमिन्द्रो रुषितः पुनः ॥ ३४ ॥
 एकैकं सप्तधा चक्रे वज्रैर्लवारिकर्षणः । मरुतो नाम देवास्ते
 वभ्रुवुर्भरतर्षभ ॥ ३५ ॥ यथैवोक्तं मघवता तथैव मरुतोऽभवन् ।
 देवा एकोनपञ्चाशत् सहाया वज्रपाणिनः ॥ ३६ ॥ तेषामेवं मरु-
 द्धानां भूतानां जनमेजय । रोचयन् वै गणश्रेष्ठं देवानाममिर्ता-
 जसम् ॥ ३७ ॥ निकायेषु निकायेषु हग्निः प्रादात् प्रजापतिम् ।
 क्रमशस्तानि राज्यानि पृथुपूर्वाणि भारत ॥ ३८ ॥ स हरिः
 पुरुषो वीरः कृष्णो जिष्णुः प्रजापतिः । पर्गन्यस्तपनो व्यक्त-
 स्तस्य सर्वमिदं जगत् ॥ ३९ ॥ भूतसर्गमिमं सम्यक् जानतो भर-

उसके गर्भके सात टुकड़े कर डाले, वज्रसे कटता हुआ वह गर्भ
 रोने लगा ॥ १३३ ॥ उस समय इन्द्रने उससे वार २ 'मा रोदी-
 मत रो' कहा जब उस गर्भके सात टुकड़े होगए तब शत्रुकर्षण
 इन्द्रने फिर क्रोधमें भर कर उस पत्येक टुकड़ेके वज्रसे सात २
 टुकड़े कर डाले, हे भरतर्षभ ! वे मरुत् नामक देवता हुए ३४।३५
 इन्द्रने जिस प्रकार कहा था, इसी प्रकार वे मरुत् नामक देवता
 हुए वे उडझास हैं और वज्रपाणि इन्द्रकी सहायता करते हैं ३६
 हे जनमेजय ! जब वे प्राणी इस प्रकार बढ़ गए तब देवताओंके
 श्रेष्ठ समूहको प्रकाशित करने वाले हरिने टोलियोंमें प्रजापति
 नियुक्त कर दिये हे भारत ! उन्होंने पृथु आदिको क्रमशः राज्य
 बाँट दिये ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ वह हरि पुरुष हैं वीर हैं कृष्ण हैं
 जिष्णु हैं और प्रजापति हैं, मेघ हैं और सूर्य हैं और सब जगत्
 उनको व्यक्त रहता है ॥ ३९ ॥ हे भरतर्षभ ! इस भूतसृष्टिको
 भलीप्रकारसे जानने वालेको और मरुतोंके शुभ जन्मको सुनने
 वा पढ़ने वालेको जन्ममरणका भय नहीं रहना, फिर परलोक

तर्जभ । मरुतां च शुभं जन्म शृण्वतः पठतोऽपि वा । नावृत्तिभयं-
मस्तीह परलोकभयं कुतः ॥ १४० ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेपु हरिवंशो हरिवंशपर्वणि मरु-

तोत्पत्तिकथने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

वैशम्पायन उवाच । अभिषिच्याधिराज्ये तु पृथुं वैभ्यं पिता-
महः । ततः क्रमेण राज्यानि व्याद्रेष्टुमुपचक्रमे ॥ १ ॥ द्विजानां
शीरुथां चैत्र नक्षत्रग्रहयोस्तथा । यज्ञानां तपसां चैव सोमं राज्ये-
ऽभ्यषेचयत् ॥२॥ अर्षां तु वरुणं राज्ये राज्ञां वैश्रवणं प्रभुम् ।
बृहस्पतिं तु विश्वेषां ददानांगिरसं पतिम् ॥ ३ ॥ भृगूणामधिपं
चैव काव्यं राज्येऽभ्यषेचयत् । आदित्यानां तथा विष्णुं वसु-
नामथ पावकम् ॥ ४ ॥ प्रजापतीनां दक्षन्तु मरुतामथ वासवम् ।
दैत्यानां दानवानां च महादमपितौजसम् ॥ ५ ॥ वैवस्वतं च
पितॄणां यमं राज्येऽभ्यषेचयत् । मातॄणां च व्रतानां च मन्त्राणां

का भय तो होगा ही कहोंसे ? ॥१४०॥ तीसरा अध्याय समाप्त

रितामहने पहिले राजाओंके भी ऊपर राजारूपसे वेनपुत्र
पृथुका अभिषेक किया, फिर क्रमसे वह राज्य देने लगे ॥ १ ॥
द्विज लता नक्षत्र ग्रह यज्ञ (के अभिमानी देवता) और तपके
राज्यमें सोमका अभिषेक किया ॥२॥ जल और यज्ञोंके राज्यमें
विश्रवाके पुत्र वरुणका अभिषेक कर दिया, विश्वदेवाओं पर
अङ्गिरसगोत्री बृहस्पतिको राजा बना दिया ३ भृगुओंके ऊपर
स्वामीरूपसे शुक्राचार्यका अभिषेक कर दिया, आदित्योंके ऊपर
विष्णुको और वसुओंके ऊपर अग्निको (राजा बना दिया) ४
प्रजापतियों पर दक्ष और मरुतों पर इन्द्रको और दैत्य तथा
दानवोंके ऊपर अमित पराक्रमी महादको राजा बना दिया और
पितरोंके राज्य पर सूर्यपुत्र यमका अभिषेक कर दिया ॥ ५ ॥
पोड़शमातृका व्रत मन्त्र गाँ यज्ञ राजस्य पाथिव पदार्थ साध्य

च तथा गवाम् ॥ ६ ॥ यज्ञाणां राज्ञसानां च पार्थिवानां तथैव
 च । नारायणं तु साध्यानां रुद्राणां वृषभध्वजम् ॥ ७ ॥ विप्र
 चित्तिं तु राजानं दानवानामथादिशत् । सर्वभूतपिशाचानां गिरीशं
 शूलपाणिनम् ॥ ८ ॥ शैलानां हिमवन्तं च नदीनामथ सागरम् ।
 गन्धानां मरुतां चैव भूतानामशरीरिणाम् । शब्दाकाशवतां चैव
 वायुं च बलिनां वरम् ॥ ९ ॥ गन्धर्वाणामधिपतिं चक्रे चित्र-
 रथं प्रभुम् । नागानां वासुकिं चक्रे सर्पाणामथ तक्षकम् ॥ १० ॥
 वारणानां च राजानमैरावतमथादिशत् । उच्चैःश्रवसपशुनां
 गरुडं चैव पक्षिणाम् ॥ ११ ॥ मृगाणामथ शार्दूलं गोवृषं च
 गवां पतिम् । वनस्पतीनां राजानं लक्ष्ममेवादिशत् प्रभुम् ॥ १२ ॥
 सागराणां नदानां च मेघानां वर्षणस्य च । आदिस्थानामधि-

और रुद्रोंके राज्यमें नारायण वृषध्वजका अभिषेक कर दिया ७
 और विप्रचित्तिको दानवोंके राजा बननेका आदेशपत्र दे दिया,
 सकल भूत और पिशाचोंके ऊपर गिरीश और शूलसे व्यवहार
 करने वाले महादेवजीका अभिषेक कर दिया ८ शैलोंमें हिम-
 वान्को और नदियोंमें समुद्रको स्वामी बना दिया, गन्धाश्रय
 द्रव्यों पर मरुतों पर (प्राणवायु पर) और अशरीरी [स्थूल-
 शरीररहित प्रेत आदि] भूतों पर तथा शब्द और आकाश वाले
 [भेरी आदि तथा हमारे शरीरों] पर बलियोंमें श्रेष्ठ वायुका
 [अभिषेक कर दिया] ९ प्रभु चित्ररथको गन्धर्वोंका स्वामी
 बना दिया, नागों पर वासुकिको और सर्पों पर तक्षकको राजा
 बना दिया १० और वारणों [हस्तियों] के ऊपर ऐरावतको
 राजा बना दिया, अश्वोंके ऊपर उच्चैःश्रवाको और पक्षियोंके
 ऊपर गरुड़को राजा बना दिया ११ मृग [वनचारी पशुओं]
 पर शार्दूल [सिंह] को और गौओंके ऊपर साँडको पति बना
 दिया और वनस्पतियोंपर प्रभु लक्ष्म [पिलासन] के राजा बना दिया

पति पर्जन्यमभिषिक्तवान् ॥ १३ ॥ सर्वेषां दक्षिणां शेषं राजा-
नामभ्यषेचयत् । सरीसृपाणां सर्पाणां राजानं चैव तन्नरुम् १४
गन्धर्वाप्सरसां चैव कामदेवं तथा प्रभुम् । ऋतूनामथ मासानां
दिवसानां तथैव च ॥ १५ ॥ गन्नाणां च जगणां च मुहूर्ततिथि-
पर्वणाम् । कलाकाष्ठाप्रमाणानां गतेरयनयोस्तथा ॥ १६ ॥
गणितस्याथ योगस्य चक्रे संवत्सरं प्रभुम् । एवं विभज्य राजानि
क्रमेण स पितामहः ॥ १७ ॥ दिशापालानथ ततः स्थापयामास
भारत । पूर्वस्यां दिशि पुत्रं तु वैराजस्य प्रजापतेः ॥ १८ ॥
दिशापाल सुधन्वानं राजानं चाभ्यषेचयत् । दक्षिणस्यां महा-
त्मानं कर्दमस्य प्रजापतेः ॥ १९ ॥ पुत्रं शंखपदं नाम राजानं

सागर नद मेघ और वर्षण और आदित्यों (सौ किरणों) के
अभिपति पद पर पर्जन्यका अभिषेक कर दिया ॥ १३ ॥ सकल
ढाढ वाले सर्पों पर शेषका राजारूपसे अभिषेक कर दिया
और [डुंडुप आदि निर्विष] सरीसृप सर्पों पर तन्नरुको
राजा बना दिया ॥ १४ ॥ गन्धर्व और अप्सराओंके ऊपर
प्रभु कामदेवका अभिषेक कर दिया ऋतु मास दिन पक्ष जग
[रात्रि] मुहूर्त तिथि पर्व कलाकाष्ठाके प्रमाण उत्तरायण और
दक्षिणायनकी गति, गत्यादि परिमाण और उपराग [के अभि-
मानी देवताओं पर] प्रभु सम्वत्सर [के अभिमानी देवता]
का अभिषेक कर दिया इस प्रकार पितामहने क्रमपूर्वक राज्यों
का विभाग करके ॥ १५-१७ ॥ दिग्गालोंको स्थापित किया,
उन्होंने पूर्वदिशामें वैराजप्रजापतिके पुत्र राजा सुधन्वा नामक
दिवगालका अभिषेक कर दिया और दक्षिण दिशामें कर्दम
प्रजापतिके पुत्र महात्मा शंखपदका राजपद पर अभिषेक कर
दिया इसी प्रकार पश्चिम दिशामें राजसमे पुत्र अन्युत महात्मा
केतुमानका राजाके पदपर अभिषेक कर दिया, इसी प्रकार उत्तर

सोऽभ्यगेचयत् । पश्चिमायां दिशि तथा राजसः पुत्रमच्युतमूर्०
 फेतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यगेचयत् । तथा हिरण्यरोमाणं
 पर्जन्यस्य प्रजापतेः ॥ २१ ॥ उदीच्यां दिशि दुर्धर्षं राजानं
 सोऽभ्यगेचयत् । तैरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपर्वता ॥ २२ ॥
 यथाप्रदेशमद्यापि धर्मेण परिपाल्यते । राजसूयाभिपिक्तस्तु पृथु-
 रेभिर्नराधिपैः । वेददृष्टेन विधिना राजराज्ये नराधिप ॥ २३ ॥
 ततो मन्वन्तरेऽनीते चान्नुपेऽमिततेजसि । वैवस्वताय मनवे ब्रह्मा
 राज्यमथादिशत् । तस्य विस्तरमाख्यास्ये मनोवैवस्वतस्य ह२४
 तवानुकूल्याद्राजेन्द्र यदि शुश्रूषसेऽनघ । महद्ध्येतदधिष्ठानं पुराणं
 परिकीर्तितम् । धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्गवासकरं शुभम् ॥ २५ ॥
 जनमेजय उवाच । विस्तरेण पृथोर्जन्म वैशम्पायन कीर्तया यथा
 महात्मना तेन दुग्धा चेषं वसुन्धरा ॥ २६ ॥ यथा च पितृभि-
 दिशामे पर्जन्य प्रजापतिके पुत्र दुर्धर्षं हिरण्यरोमाका राजपद पर
 अभिषेक करदिया, उन सब पुरुषों करके आज भी सातों द्वीप
 और पर्वतों सहित सारी पृथिवीके अपने२ प्रदेशका धर्मानु-
 सार शासन होरहा है, हे नराधिप ! पहिले इन नराधिपोंने वेद
 की विधिसे राजसूयज्ञमें राजाओंके भी राजापद पर पृथुका
 अभिषेक कर दिया था ॥ १८-२३ ॥ इसके उपरान्त चान्नुप
 मन्वन्तरके अनन्तर ब्रह्माजोने वैवस्वत मनुको राज्य देदिया
 अथ मैं उन वैवस्वत मनुके विस्तारको कहूँगा ॥ २४ ॥ यदि तू
 इस वृत्तान्तको अनुकूल रहकर सुनना चाहेगा तो मैं तुझसे कहूँगा
 मैंने तुझसे प्राचीन और बड़ाभारी अधिष्ठान कह दिया यद
 धनको देनेवाला आयुको देनेवाला और शुभ है तथा शुभपद
 है ॥ २५ ॥ जनमेजयने कहा, कि—हे वैशम्पायनजी ! आप
 मुझसे पृथुके जन्मका विस्तार पूर्णकर करिये और हे वैश-
 म्पायनजी ! उन महात्माने इस पृथिवीको जिसप्रकार दुहा हो

दुग्धा यथा देवैर्यथविधिः । यथा दैत्यैश्च नागैश्च यथा यत्तैर्यथा
 द्रुमैः ॥ २७ ॥ यथा शैलैः पिशाचैश्च गन्धर्वैश्च द्विजोत्तमैः । राक्ष-
 सैश्च महासत्त्वैर्यथा दुग्धा वसुन्धरा ॥ २८ ॥ तेषां पात्रविशेषांश्च
 वैशम्पायन कीर्तय । वत्सान् क्षीरविशेषांश्च दोग्धारं चानुपूर्वशः २९
 यस्माच्च कारणात् पाणिर्बेनस्य मथितः पुरा । क्रुद्धैर्महर्षिभिस्तात
 कारणं तच्च कीर्तय ॥ ३० ॥ वैशम्पायन उवाच । इन्त ते कथ-
 पिष्गाभि पृथोर्वेन्यस्य विस्तरम् । एकाग्रः प्रयतश्चैव शृणुष्व जन-
 मेगय ॥ ३१ ॥ नाशुचेः क्षुद्रमनसः कुशिष्यायात्रताय च । कीर्त-
 नीरिपिं राजन् कृतघ्नप्रायाहिताय वा ॥ ३२ ॥ स्वर्ग्यं यशस्य-
 मायुष्यं धर्म्यं वेदेन सम्पितम् । रहस्यमृषिभिः प्रोक्तं शृणु राजन्

और पितरोंने इसे जिन प्रकार दुहा हो और देवता तथा ऋषि-
 योंने इसे जिस प्रकार दुहा हो जिस प्रकार दैत्योंने जिस प्रकार
 नागोंने जिस प्रकार यत्तोंने और जिस प्रकार वृत्तोंने जिस
 प्रकार पर्वत पिशाच गन्धर्व और द्विजोत्तमोंने तथा महासत्त्व वाले
 राक्षसेने इसको दुहा हो [इसका] और पात्रविशेषोंका वर्णन
 करिये, वत्सोंका क्षीरविशेषोंका और दुहनेवालोंका भी क्रमशः
 कीर्तन करिये । २६-२९ । और पहिले महर्षियोंने जिस कारण
 से क्रोधमें भरकर बेनके हाथको मथ डाला था, हे तात ! उस
 कारणका भी आप वर्णन करिये । ३० । वैशम्पायनजीने कहा
 कि-हे जनमेजय ! अब मैं बेनपुत्र पृथुके वृत्तान्तको कहता हूँ
 उसको तू एकाग्र होकर यत्नपूर्वक सुन ३१ हे राजन् । उस
 वृत्तान्तको अपवित्र और क्षुद्रमन वाले कुशिष्यसे तथा व्रत न
 धारण करनेवालेसे और कृतघ्नसे तथा अहितकारी पुरुषसे न
 कहना चाहिये ३२ यह (इतिहास) स्वर्ग देने वाला यश देने
 वाला आयुको बढ़ाने वाला और धर्ममय है तथा वेदकी समान
 है; इस रहस्यको ऋषियोंने कहा है, उसको तू यथावत् सुन ३३

यथातथम् ॥ ३३ ॥ यश्चैनं कथयेन्नित्यं पृथुर्वैश्वस्य विस्तरम् ।
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य न स शोचेत्कृताकृतैः ॥ ३४ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशपर्वणि पृथुपाख्यानै
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

वैशम्पायन उवाच । आसीद्धर्मस्य गोत्रा वै पूर्वमत्रिसप्तः
प्रभुः । अत्रिवंशसमुत्पन्नस्तद्गो नाम प्रजापतिः ॥ १ ॥ तस्य
पुत्रोऽभवद्देवो नात्यर्थं धर्मकोविदः । जातो मृत्युसुतायां वै सुनीथायां
प्रजापतिः ॥ २ ॥ स मातामहदोषेण वेनः कालात्मजात्मजः ।
स्वधर्मं पृष्ठतः कृत्वा कामाल्लोभेष्ववर्तत ॥ ३ ॥ मर्यादां स्थाप-
यामास धर्मापेतां स पार्थिवः । वेदधर्मानतिक्रम्य सोऽधर्मनिर-
तोऽभवत् ॥ ४ ॥ निःस्वाध्यायवपट्कारस्तस्मिन् राजनि शासति ।
प्रवृत्तं न पपुः सोमं हुतं यज्ञेषु देवताः ॥ ५ ॥ न यष्टव्यं न

जो पुरुष ब्राह्मणोंको नमस्कार करके राजा वेनके पुत्र पृथुके इस
विस्तृत इतिहासको सुनता है उसको किये हुए और न किये-
कर्मोंका शोक नहीं करना पड़ता है ३४ चतुर्थ अध्याय समाप्त ४

वैशम्पायनजीने कहा, कि पहिले समयमें अत्रिकी सप्तान
धर्मके रक्षक अत्रिवंशोत्पन्न अद्र नामक प्रजापति हुए ॥ १ ॥
उनका पुत्र वेन हुआ परन्तु वह धर्ममें अनिचतुर नहीं था, वह
प्रजापति मृत्युकी पुत्री सुनीथामें उत्पन्न हुआ था ॥ २ ॥ वह
कालात्मना (मृत्यु) का आत्मज वेन नानाके दोषसे आने धर्म
को पीठ देकर कामके कारण लोभ करने लगा ॥ ३ ॥ वह धर्म-
विहीन मर्यादाको स्थापित करने लगा और वेदोक्त धर्मोंका
चलंगन करके अधर्ममें परायण होगया ॥ ४ ॥ उस राजाके
शामनकालमें (सारा संसार) स्वाध्याय और वपट्कार-रहित
होगया, इस लिये देवताओंके उद्देश्यसे त्याग और अग्निमें होमे
हुए हविकों भी देवताओंने नहीं पिपा ॥ ५ ॥ जब उसका चिनाश-

होतव्यमिति तस्य प्रजापतेः । आसीत् प्रतिज्ञा क्रयेयं विनाशे
 मत्पुपस्थिते ॥ ६ ॥ अहमिदं यथा च यज्ञश्चेति कुरुद्वह । मयि
 यज्ञो विधातव्यो मयि होतव्यमित्यपि ॥ ७ ॥ तप्तिकान्तपर्याद-
 माददानमसांपतम् । ऊर्जुर्महर्षयः सर्वे मरीचिप्रमुखास्तथा ॥ ८ ॥
 वयं दीक्षां प्रवेक्षामः संवत्सरगणान् बहून् । अधर्मं कुरु मा वेन
 नैव धर्मः सनातनः ॥ ९ ॥ निधनेऽत्र प्रसूबस्त्वं प्रजापतिरमंश-
 यम् । प्रजाश्च पालयिष्येऽमिति ते समयः कृतः ॥ १० ॥ तांस्तदा
 ब्रुवतः सर्वान् महर्षीन्ब्रवीत्तदा । वेनः प्रहस्य दुर्बुद्धिरिममर्थपन-
 र्थवित् ॥ ११ ॥ वेन उवाच । सृष्टा धर्मस्य कथान्यः श्रोतव्यं
 कस्य वै मया । श्रुतवीर्यतपःसत्यैर्मया वा क्रः समो भुवि ॥ १२ ॥

काल उपस्थित होगया तब उस प्रजापतिने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर
 ली, कि-कोई यज्ञ न करे ॥ ६ ॥ (अन्तिम समयमें उसकी यह
 बुद्धि होगई थी, कि-) मैं ही पूजा करने योग्य हूँ, मैं ही
 पूजन करने वाला हूँ और मैं ही यज्ञ हूँ, मुझ (देवतारूप) में
 मेरे निमित्त यज्ञ करना चाहिये और मुझ (अग्निरूप) में होम
 करना चाहिये ॥ ७ ॥ मरीचि आदि सब बड़े २ ऋषियोंने
 पर्यादाका उल्लंघन करने वाले और अनुचित मार्गको ग्रहण
 करनेवाले वेनसे कहा, कि ॥ ८ ॥ हम बहुत वर्षोंमें पूर्ण होने
 वाली दीक्षा लेते हैं, हे वेन ! अब तू अधर्म न करना, क्योंकि-
 यह सनातनधर्म नहीं है ॥ ९ ॥ तू इस कुलमें प्रजापति ही-उत्पन्न
 हुआ है और तूने प्रतिज्ञाकी थी, कि-मैं प्रजाका पालन करूँगा १०-
 जब महर्षि इस प्रकार कह रहे थे उस समय अनर्थको अपनाने
 वाले दुर्बुद्धि वेनने यह बात कही ॥ ११ ॥ वेन बोला, कि-(मेरे
 अतिरिक्त) धर्मका रचने वाला और कौन है ? और मैं किसकी
 बात सुनूँ ? इस पृथ्वीमें वेद वीर्य तप और सत्यमें मेरी समान
 और कौन है ? ॥ १२ ॥ आप अचेत होरहे हैं और मूर्ख हैं अब

प्रभवं सर्वभूतानां घर्षाणां च विशेषतः । संयुद्धा न विदुर्ननं
 भवन्तो मापचेतसः ॥ १३ ॥ इच्छन् दहेयं पृथिवीं साक्षयेयं तथा
 जलैः । खं भुवं चैव हन्येयं नात्र कार्या विचारणा ॥ १४ ॥ यदा
 न शक्यते मोहादवलेपाच्च पार्थिवः । अनुनेतुं तदा वेनस्ततः
 क्रुद्धा महर्षयः ॥ १५ ॥ निगृह्य तं महात्मानो विस्फुरन्तं महा-
 वलम् । ततोऽस्य सन्यमूहं ते ममंथुर्जातमन्यवः ॥ १६ ॥ तस्मिंस्तु
 मथ्यमाने वै राज्ञ ऊरौ मज्जिवान् । हस्वोऽतिमात्रः पुरुषः कृष्ण-
 धातिवभूव ह ॥ १७ ॥ स भीतः प्राञ्जलिर्भूत्वा स्थितवान् जन-
 मेजय । तमत्रिविह्वलं दृष्ट्वा निपीदेत्यब्रवीत्तदा ॥ १८ ॥ निषाद-
 वंशकर्ताऽसौ वभूव वदनाम्बर । धीवरानसृजच्चाय वेनकर्म-
 पसम्भवान् ॥ १९ ॥ ये चान्ये किंध्यनिलयास्तु पारास्तुम्बरास्तथा ।
 अशर्मरुवयो ये च विद्धि तान् वेनसंभवान् ॥ २० ॥ ततः पुन-
 ह्येव सव भूतोंके और विशेषतः धर्मोंके उत्पत्तिस्थान मुझको
 नहीं पहिचानते हैं ॥ १३ ॥ यदि मैं चाहूँ तो पृथ्वीको भस्म करदूँ
 वा जलसे लावित कर दूँ और पृथ्वी तथा आकाशको भी खा
 दूँ, इसमें विचार करनेकी कोई बात नहीं है ॥ १४ ॥ गर्व और
 मोहके वशमें हुए उस राजाको जब वे ऋषि न समझा सके तब
 वे क्रोधमें भर गए ॥ १५ ॥ और वे महात्मा उस अकड़ते हुए
 महाबली राजाको पकड़ कर क्रोधमें भर उसकी दाहिनी जाँघ
 को मथने लगे ॥ १६ ॥ राजाकी उस जंघाके मथे जाने पर
 उसमेंसे बहुत टिगना और कालासुच्च एक पुरुष निकला ॥ १७ ॥
 हे जनमेजय ! वह डर कर हाथ जोड़ कर खड़ा होगया, अत्रिने
 उसको विह्वल देख कर उससे कहा, कि-‘निपीद-वैठ जा’ ॥ १८ ॥
 हे योत्सने वालोंमें श्रेष्ठ ! वह निषादके वंशको चलाने वाला हुआ
 और उसने वेनके पापसे उत्पन्न होने वाले धीवरोंको रचा ॥ १९ ॥
 जो किंध्यमें रहने वाले हैं जो तुषार हैं और तुम्बर हैं और जो

महात्मानः पाणिं वेनस्य दक्षिणम् । अरणीमिव स्त्रंब्धा मम-
 थुस्ते महर्षयः ॥ २१ ॥ पृथुस्तस्मात् समुत्तस्थौ कराञ्जवलन-
 सन्निभः । दीप्यमानः स्ववपुषा साक्षादग्निरिव ज्वलन् ॥ २२ ॥
 स धन्वी कवची जातः पृथुरेव महायशाः । आद्यमाजगवं नाम
 धनुर्ध्वं महारक्षम् । शरश्च दिव्यान् रक्षार्थं कवचं च महा-
 प्रभम् ॥ २३ ॥ तस्मिन् जातेऽथ भूतानि संप्रहृष्टानि सर्वशः ।
 समापेतुर्महास्रज वेनश्च त्रिदिवं गतः ॥ २४ ॥ समुत्पन्नेन कौरव्य
 सत्पुत्रेण महात्मना जातः स पुरुषव्याघ्र पुन्नाम्नो नरकात्तदा २५
 तं समुद्राश्च नगरश्च रत्नान्दत्तदाय सर्वज्ञः । तोयानि चाभिषे-
 क्य सर्व एत्रोपतस्त्रिरे ॥ २६ ॥ पितामहश्च भगवान् देवीरांगि-
 रसौः सह । स्थवरराणि च भूतानि जंगमानि तथैव च ॥ २७ ॥

अधर्मसे प्रेम करते हैं इन सबको वेनसे उत्पन्न हुआ समझ २०
 तदनन्तर वे क्रोधमें भरे हुए महात्मा महर्षि वेनके दाहिने हाथ
 को अरणीकी समान यथने लगे ॥ २१ ॥ उस हाथसे अग्निकी
 समान कान्तिवान् पृथु उत्पन्न हुआ वह अपने शरीरसे अग्नि
 की समान दमक रहा था ॥ २२ ॥ वह महाशस्त्री पृथु हाथ
 में धनुष और बाणको धारण किये हुए और रक्षाके लिये महा
 कान्तिवान् कवच और दिव्य बाणोंको धारण किये हुए ही
 उत्पन्न हुआ था, वह हाथमें महाशब्द करने वाले प्राचीन आज-
 गव नामक धनुषको धारण किये हुआ उत्पन्न हुआ था ॥ २३ ॥
 हे महास्रज ! उसके उत्पन्न होने पर सब प्राणी प्रसन्न होकर
 उसके पासको दौड़ आये और वेन भी स्वर्गको चला गया २४
 हे पुरुषव्याघ्र कौरव ! उस महात्मा सत्पुत्रके होने पर उसकी
 पुं नामक नरकसे रक्षा होगई ॥ २५ ॥ उस पृथुका अभिषेक
 करनेके लिये सब समुद्र और नदियों धारों औरसे जल और
 रत्न लेकर आने लगे ॥ २६ ॥ और भगवान् पितामह भी महि-

समागम्य तदा औन्यमभ्यपिचन्नराधिपम् । महता राजराज्येन
 प्रजापालं महाद्युतिम् ॥ २८ ॥ सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिव
 दर्मकोविदेः । आदिराज्ये तदा राज्ञां पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् ॥ २९ ॥
 पित्राऽपरंजितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्जिताः । अनुरागात्ततस्तस्यै
 नाम राजेत्यजायत ॥ ३० ॥ आपस्तस्तंभिरे चास्य समुद्रमधि-
 यास्यतः । पर्वताश्च ददुमार्गं ध्वजभङ्गश्च नाभवत् ॥ ३१ ॥
 अक्रुष्टपच्या पृथिवी सिध्वत्यन्नानि चिन्तया । सर्वकामदुघां
 गावः पुटके पुटके मधु ॥ ३२ ॥ एतस्मिन्नेव काले तु यज्ञे पैता-
 महे शुभे । मृतः मृत्पां समुत्पन्नः सौत्येऽहनि महामतिः ॥ ३३ ॥
 तस्मिन्नेव महायज्ञे जज्ञे प्राज्ञोऽथ मागधः । पृथोः स्तवार्थे तौ तत्रे

रसगोत्री देवताओंको साथमें लेकर तहाँ आये थे और स्थावर
 जंगम भूतोंने भी तहाँ आकर प्रजापालक महाकान्तिमान् वैनके
 पुत्र राजा पृथुका वहे भारी राजाओंके राज्य पर अभिषेक
 किया ॥ २७ ॥ २८ ॥ जब धर्मको जानने वालोंने महातेजस्वी
 और प्रतापी वैनके पुत्रका राजाओंके आदिराज्य (साम्राज्य)
 पद पर अभिषेक कर दिया ॥ २९ ॥ तब उसने पिताकी पीड़ित
 की हुई प्रजाको प्रसन्न किया, तब प्रजासे अनुराग करनेके
 कारण उसका राजा नाम पंडंगया ॥ ३० ॥ जब यह समुद्रपर
 चलता था, उस समय जल स्तम्भित हो जाता था, और पर्वत
 इसके लिये मार्ग छोड़ देते थे, इस कारण इसकी ध्वजा (कभी)
 नहीं टूटती थी ॥ ३१ ॥ उसके शासनकालमें पृथ्वी विनां जाते
 हुए ही अन्न देगी थी और चिन्तन करनेसे ही अन्न उत्पन्न
 होजाता था, गाँवें सब कामनाओंको पूर्ण करती थीं और प्रत्येक
 दोनामें मधु गरा रहता था ॥ ३२ ॥ इसी समय पितामहके
 शुभ यज्ञमें सोमको निकालनेके दिन सोमका अभिषेक करते
 समय महाद्युतिमान् मृत उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ तदनन्तरें उस

समाहूतौ सुरपिभिः ॥ ३४ ॥ तावृचुर्ऋषयः सर्वे स्तूयतामेव
 पार्थिवः । कर्मस्तदनुरूपं वा पात्रं चायं नराधिपः ॥३५॥ तावृ-
 चतुस्तदा सर्वास्तावृषीन् सूतमागधौ । आवां देवानृषीश्चैव
 प्रीणयावः स्वकर्मभिः ॥३६॥ न चास्य विद्वो वै कर्म न तथा
 लक्षणं यथाःस्तोत्रं येनास्य कुर्याव राजस्तेजस्विनो द्विजाः ३७
 ऋषिभिस्तौ नियुक्तौ च भविष्ये स्तूयतामिति । यानि कर्माणि
 कृतवान् पृथुः पश्चान्महाबलः ॥ ३८ ॥ सत्यचामदानशीलोऽयं
 सत्यसन्धो नरेश्वरः । श्रीमान् जैत्रः क्षमाशीलो विक्रान्तो दृष्ट-
 वी महायज्ञमै बुद्धिमान् यागध उत्पन्न हुआ, देवता और ऋषियों
 ने पृथुकी स्तुति करनेके लिये उनको तहाँ बुलाया था ॥ ३४ ॥
 सब ऋषियोंने उन दोनोंसे कहा, कि-इस पार्थिवकी स्तुति
 करनी चाहिये, तुम इसके कर्मोंके अनुसार इसकी स्तुति
 करो, यह राजा स्तुतिको पात्र है । ३५ । उस समय सूत और
 मार्गश्योंने उन सब महात्माओंसे कहा, कि हम अपने कर्मोंसे
 देवता और ऋषियोंको प्रसन्न करते रहते हैं ॥ ३६ ॥ परन्तु
 इस राजाके लक्षण और येशको तो हम जानते ही नहीं, हे द्विजों!
 यदि हम जानते होते तो हम इस तेजस्वी राजाकी स्तुति करते ३७
 तब ऋषियोंने उसके भविष्यके कर्मोंके लिये और जो कर्म उस
 महाबलीने पहिले (कल्पमें) किये थे उनकी स्तुति करनेके लिये
 उन दोनोंको नियुक्त किया (क्योंकि-प्रत्येक कल्पमें समान नाम
 रूप वाली एक सी ही सृष्टि होती है, लिखा भी है, कि- 'सूर्या-
 चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् धाताने पूर्वकल्पकी समान
 चन्द्रमा और सूर्यकी कल्पना की" इसी बातको सूचित करनेके
 लिये यह बात कही है) । ३८ । यह सत्यप्रतिज्ञ नरेश्वर सत्य
 प्रिज्ञा वाला राजा सच्ची वाणीका उच्चारण करने वाला दान
 देने वाला और सत्यप्रतिज्ञ है, लक्ष्मीवान् है, जय करने वाला

शासनः ॥ ३६ ॥ धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च दयावान् प्रियभाषणः ।
मान्यो मानयिता यज्वा ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः ॥ ४० ॥ शमः
शान्तरश्च निरतो व्यवहारस्थितो नृपः ततः प्रभृति लोकेषु स्तवेषु
जनमेजय । आशीर्वादाः प्रयुज्यन्ते सूतमागधवन्दिभिः ॥ ४१ ॥
तपोः स्तत्रैर्स्तैः सुप्रीतः पृथुः प्रादात् प्रजेरश्वरः । अनूपदेशं
सूताय मगधान् मागधाय च ॥ ४२ ॥ तं हृष्टा परमपीताः प्रजा-
श्चाद्गुर्महर्षयः । वृत्तीनामेव वो दाता भविष्यति जनेश्वरः ४३
ततो वैन्यं महाराज प्रजाः समभिदुद्रुवुः । त्वं नो वृत्तिं विध-
त्स्वेति महर्षिवचनाच्चदा ॥ ४४ ॥ सोभिद्रुतः प्रजाभिस्तु प्रजा-
हितचिकीर्षया । धनुर्दृष्ट्वा पृथक्काश्च पृथिवामार्दयद्वली ॥ ४५ ॥
ततो वैन्यभयव्रस्ता गौर्भूत्वा माद्रवन्मही । तां पृथुर्धनुरादाय

है, जमाशील है पराक्रमी है और शासनकार्यको देखता रहने
वाला है ३६ धर्मज्ञ कृतज्ञ दयावान् और प्रिय भाषण करने
वाला है, मान्य है (दूसरोंका) मान करने-वाला है, यजन करने
वाला है सत्यप्रतिज्ञ है ४० शमसम्पन्न है, शान्त रहता है और
यह राजा अपने व्यवहारमें लगा रहना है हे जनमेजय ! उस
दिनसे लोकोंमें मृत मागध और वन्दिपोंके द्वारा आशीर्वाद दिगे
जाते हैं ॥ ४१ ॥ प्रजाके ईश्वर पृथुने उनके उन स्त्रियोंसे प्रसन्न
होकर सूतको अनूपदेश और मागधको मगध देश दे दिया ४२
इस बातको देख कर महर्षि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रजा-
ओंसे कहा; कि-यह जनेश्वर (राजा) तुम्हें वृत्ति (आजी-
विका) देने वाला होगा ४३ हे महाराज ! महर्षियोंके ऐसा कहने
पर प्रजा 'तुम हमारी वृत्तिको वाँधो २' कहती हुई राजा वेन
के पासको दौड़ी चली गई ४४-जब, प्रजाने उसको उकसाया
तब वह महाबली धनुष और बाणोंको उठा कर पृथ्वीको पीड़ित
करने लगा ४५ तब तो पृथ्वी वेनके भयसे व्रस्त हो गौका रूप

द्रवन्तीमन्वधावत ॥ ४६ ॥ स लोकान् ब्रह्मलोकादीन् गत्वा
 वैन्यभयात्तदा । प्रददर्शाग्रतो वैन्यं मृगहीतशरासनम् ॥ ४७ ॥
 ज्वलद्भिर्निशितैर्वासीदीप्ततेजसमन्युतम् । महायोगं महात्यानं
 दुर्धर्षममरैरपि ॥ ४८ ॥ अलभन्ती तु सा त्राणं वैन्यमेवान्व-
 पयत । कृताञ्जलिपुटा भूत्वा पूजया लोकैस्त्रिभिः सदा ४९
 उवाच वैन्यं नाधर्मं स्त्रीवधं कर्तुमर्हसि । कथं धारयिता चासि
 प्रजा राजन्विना मया ॥ ५० ॥ मयि लोकाः स्थिता राजन्मयेदं
 धार्यते जगत् । मद्भिनाशे विनश्येयुः प्रजाः पार्थिव विद्धि तत् ५१
 न त्वमर्हसि मां हन्तुं श्रेयश्चेत्त्वं चिकीर्षसि । प्रजानां पृथिवी
 पाल शृणु चेदं वचो मम ॥ ५२ ॥ उपायतः समारब्धाः सर्वे
 सिध्यन्त्युपक्रमाः । उपायं पश्य येन त्वां धारयेथाः प्रजा नृप ३

धारण कर भागने लगी, तब पृथु धनुष लेकर उस दौड़ती हुई
 के पीछे दौड़ा ४६ तब पृथ्वी वेनपुत्रके भयसे ब्रह्मलोक आदि
 लोकोंमें गई परन्तु (उसने सर्वत्र ही) वेनपुत्र पृथुको हाथमें
 धनुष बाण धारण कर आगे खड़े हुए देखा ४७ जब उसको
 कहीं भी शरण नहीं मिली तब वह प्रज्वलित और तीक्ष्ण बाणों
 से अच्युत और देवताओंसे भी दुर्धर्ष महायोगी और महात्मा
 वेनके पुत्रकी ही शरणमें गई, और वह तीनों लोकोंकी पूजनीय
 पृथ्वी दोनों हाथ जोड़ कर वेनपुत्रसे कहने लगी, कि-तुम्हें स्त्री-
 वधरूप अधर्मका कार्य करना उचित नहीं है ४९-५० हे राजन !
 सब लोक मुझमें स्थित हैं, मैं इस जगत् भरको धारण कर रही
 हूँ और हे पार्थिव ! आप इस बातको जान रखें, कि-मेरा
 विनाश होने पर यह सब प्रजा नष्ट होजायगी । ५१ ॥ हे पृथिवी-
 पाल ! यदि तुम प्रजाओंका कल्याण करना चाहते हो तो तुम्हें
 मेरा वध करना उचित नहीं है, हे राजन ! तुम मेरी इस बात
 को सुनो ॥ ५२ ॥ सब कार्य उपायपूर्वक करनेसे सिद्ध होजाते

हत्वापि मां न शक्तस्त्वं प्रजा धारयितुं नृप ! अनुभूता भवि-
 प्यामि यच्छ कोपं महाद्युते ॥ ५४ ॥ अवध्याश्च स्त्रियः माहु-
 स्तिर्यग्योनिगतेष्वपि । सत्त्वेषु पृथिवीपाल न धर्मं त्यक्तुमर्हसि ५५
 एवं बहुविधं वाक्यं श्रुत्वा राजा महाभयाः । कोपं निगृह्य
 धर्मात्मा वसुधाभिदमन्नवीन् ॥ ५६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशपर्वणि पृथु-
 पारुष्याने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

पृथुरुवाच । एकस्यार्थाय यो हन्य दात्मनोन्वा परस्य वा ।
 बहून् वै प्राणिनो लोके भवेत्तस्येह पातकम् ॥ १ ॥ सुखमेधन्ति
 बहवो यस्मिंस्तु निहतेऽशुभे । तस्मिन्नास्ति हते भद्रे पातकं चोप-
 पातकम् २ एकस्मिन् यत्र निधनं प्रापिते दुष्टकारिणि । बहूनां

हैं, अतः हे नृप ! तुम उस उपायका विचार करो जिससे तुम
 प्रजाको धारण कर सको ॥५३॥ हे-नृप ! तुम मेरा वध करके
 भी प्रजाको धारण न कर सकोगे, अतः हे महाद्युते ! तुम अपने
 क्रोधको शान्त करो, तो मैं भी तुम्हारे अनुकूल हो जाऊँगी ५४
 तिर्यग्योनिके सत्त्वोंमें भी स्त्रियोंको अवध्य कहा है, अत एव
 हे पृथिवीपाल ! तुम्हें धर्मका त्याग न करना चाहिये ॥ ५५ ॥
 इस प्रकार अनेक वाक्योंको सुन कर धर्मात्मा और उदार मन
 वाला राजा पृथु अपने क्रोधको रोक कर वसुधासे इस प्रकार
 कहने लगा ॥ ५६ ॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥

पृथुने कहा, कि जो पुरुष एक व्यक्तिके लिये बहुतसे जीवों
 का वध करता है तो चाहे वह वध अपने लिये करता हो अथवा
 दूसरोंके लिये करता हो तो उसको पातक लगता है ॥१॥ और
 जिस अशुभ व्यक्तिके मारे जानेसे बहुतसे पुरुषोंको सुख मिलता
 है हे भद्रे ! उसको मारनेसे न पातक लगता है ॥२॥ और जिस दुष्टताका वर्तन करनेवाले
 पातक लगता है ॥ २ ॥ और जिस दुष्टताका वर्तन करनेवाले

भारति क्षेमं तत्र पुण्यमदो वचः ३ सोऽहं प्रजानिमित्तं त्वां हनि-
 ष्यामि वसुन्धरे । यदि मे वचनं नाथ करिष्यसि जगद्धितम् ४
 त्वां निहत्याथ चाणेन मञ्छासनपराङ्मुखीम् । आत्मानं प्रय-
 पित्वाहं प्रजा धारयिता स्वयम् ॥ ५ ॥ सा त्वं शासनमास्थाय
 मम धर्मभृताम्बरे । संजीवय प्रजाः सर्वाः समर्था ह्यसि धारणेदं
 दुहितृत्वं च मे गच्छ तत एनगहं शरम् । नियच्छेयं त्वद्भार्यमुद्यतं
 घोरदर्शनम् ॥ ७ ॥ पृथिव्युवाच । सर्वमेतदहं वीर विधास्यामि न
 संशयः । उपायतः समारब्धाः सर्वे सिद्धयन्त्युपक्रमाः ॥ ८ ॥
 उपायं पश्य येन त्वं धारयेथा प्रजा इमाः । वत्सं तु मम संपश्य
 क्षरेयं येन वत्सला ॥ ९ ॥ समां च कुह सर्वत्र मां त्वं धर्मभृतां

एक पुरुषका वच करने पर बहुतसे मनुष्योंका कल्याण होता है,
 वहाँ उसका वच करना पुण्य देता है ॥ ३ ॥ हे वसुन्धरे !
 यदि तू जगत्का हित करने वाले मेरे वचनको नहीं सुनेगी तो
 मैं प्रजाके लिये तेरा वच कर डालूंगा ॥ ४ ॥ आज मैं अपने
 शासनसे पराङ्मुख रहने वाली तुम्हको मार कर अपने देहको
 विस्तीर्ण कर उस पर प्रजाको धारण करूंगा ॥५॥ इस कारण
 धर्मधारिणियोंमें श्रेष्ठ ! तू मेरे शासनको मान कर सब प्रजाको
 जीवित रख, क्योंकि-तू प्रजाको धारण करने (जीवित रखने)
 में समर्थ है ॥६॥ अब यदि तू मेरी पुत्री बन जायगी तो ही मैं
 तेरे वचके लिये उठाये हुए इस घोर आकारवाले बाणको
 रखूंगा ॥७॥ पृथ्वीने कहा, कि-हे वीर ! मैं सब वान-तुम्हारे
 कथनानुसार करूंगी, इसमें आप कुछ सन्देह न रखिये, सब
 कार्य उपाय करने पर अवश्य सिद्ध होजाते हैं ॥ ८ ॥ अब तुम
 अपनी दिव्यदृष्टिसे उस उपायको देखो-कि-जिस उपायसे तुम
 प्रजाओंको धारण कर सकोगे, अब आप मेरे लिये दिव्यदृष्टिसे
 वत्सकी कल्पना करिये तब मैं स्नेहसे वत्सला बन कर दुःखी

वर । यथा त्रिस्पन्दमानं मे क्षीरं सर्वत्र भावयेत् ॥ १० ॥ वैश-
 म्पायन उवाच । तत उत्सारयामास शैलाञ्छतसहस्रशः । धनुः-
 कोट्या तदा वैन्यस्तेन शैला विवर्षिताः ॥ ११ ॥ पृथुर्वैन्यस्तदा
 राजा महीं चक्रे समन्ततः । मन्वन्तरेष्वतीतेषु विपमासीदसु-
 न्धरा ॥ १२ ॥ स्वभावेनाभवन् ह्यस्याः समानि विपमाणि च ।
 चाक्षुपस्यान्तरं पूर्वमासीदेवं तदा किल ॥ १३ ॥ न हि पूर्व-
 विसर्गे वै विपमे पृथिवीतले । प्रविभागः पुराणां च ग्रामाणां वा
 तदाभवत् ॥ १४ ॥ न सस्यानि न गोरक्षा न कृषिर्न वणिक्पथः ।
 न वै सत्यान्तं तत्र न लोभो न च मत्सरः ॥ १५ ॥ वैवस्व-
 तेऽन्तरे चास्मिन् साम्मतं समुपस्थिते । वैन्यात् प्रभृति राजेन्द्र
 सर्वस्यैतस्य सम्भवः ॥ १६ ॥ यत्र यत्र समं त्वस्या भूमेरासी-

दूंगी ६ हे धर्मचारियोंमें श्रेष्ठ ! आप मुझे सर्वत्र सम (चौरस)
 करिये, कि-जिससे मेरा टपकना हुआ दूध सर्वत्र (व्याप्त)
 होजाय ॥ १० ॥ वैशंपायनजीने कहा, कि-तब वेनपुत्र पृथुने
 धनुषकी अनीसे सैंरुड़ों और सहस्रों पर्वतोंको उठा कर (ईंटों
 की दीवारकी समान) उनको खड़ा कर दिया, इससे पर्वत बड़े
 होगए ॥ ११ ॥ इस प्रकार वेनके पुत्र राजा पृथुने पृथ्वीको
 (चारों ओरसे) चौरस कर दिया, पहिले मन्वन्तरोंमें तो पृथ्वी
 विपम (ऊँची नीची) थी ॥ १२ ॥ पहिले चाक्षुप मन्वन्तरमें
 इस पृथिवीके प्रदेश स्वभावतः ऊँचे नीचे थे ॥ १३ ॥ पहिले
 सर्गमें पृथिवीके विपम होनेके कारण नगर और ग्रामोंका विभाग
 नहीं हुआ था ॥ १४ ॥ उस समय न किसी प्रकारके धान्य थे,
 न गोरक्षा होती थी और न खेती होती थी, न सत्य और मिथ्या
 से मिला हुआ (चाण्डव्य) होता था, न उस समय लोभ था
 और न मत्सर था ॥ १५ ॥ हे राजेन्द्र ! इस वैवस्वत मन्वन्तर
 में ही राजा पृथुके पुत्र वेनसे ही यह सब वस्तुएँ उत्पन्न हुई

दिहानघ । तत्र तत्र मजाः सर्वाः संवासं समरोचयन् ॥ १७ ॥
 आहारः फलमूलानि मजानामभवत्तदा । कृच्छ्रेण महता युक्त
 इत्येवमनुशुश्रुम ॥ १८ ॥ संकल्पयित्वा वत्सं तु मनुं स्वायम्भुवं
 प्रभुम् । स्वपाणौ पुरुषश्रेष्ठ दुदोह पृथिवीं ततः । सस्यजातानि
 सर्वाणि पृथुर्वेन्यः प्रतापवान् ॥ १९ ॥ तेनान्नेन मजास्तांत वर्तन्ते-
 श्यापि नित्यशः । ऋषिभिः श्रूयते चापि पुनर्दुग्धा वसुन्धरा ।
 वत्सः सोमोऽभवत्तेषां दोग्धा चाङ्गिरसः सुतः ॥ २० ॥ बृह-
 स्पतिर्महातेजाः पात्रं छन्दांसि भारत । क्षीरमासीदनुपमं तपो
 ब्रह्म च शाश्वतम् ॥ २१ ॥ पुनर्देवगणैः सर्वैः पुरन्दरपुरोगमैः ॥
 काञ्चनं पात्रपादाय दुग्धेयं श्रूयते मही ॥ २२ ॥ वत्सस्तु मघ-
 वानासीद् दोग्धा च सविता प्रभुः । क्षीरमूर्जस्करं चैव वर्तन्ते
 येन देवताः ॥ २३ ॥ पितृभिः श्रूयते चापि पुनर्दुग्धा वसुन्धरा ।
 हं ॥ १६ ॥ हे अनघ ! जहाँ २ यह भूमि सम होगई मजा
 तहाँ २ रहना अच्छा समझने लगीं ॥ १७ ॥ वेनपुत्रके भूमि
 को दुहनेसे पहिले प्रजाओंको आहार फल और मूल वड़ी कठि-
 नतासे मिलता था ॥ १८ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! वेनके पुत्र प्रतापी
 पृथुने प्रभु स्वायंभुव मनुको बळड़ा बना कर पृथिवीसे सब प्रकार
 के धान्योंको अपने हाथमें दुहा १९ हे ताता ! उस दिनसे सब मजाएँ
 उस ही अन्नसे आज तक बढ़ रही हैं, सुना है, कि-फिर ऋषियोंने
 पृथिवीको दुहा था उस समय सोम उनको बळड़ा हुआ और
 महातेजस्वी अङ्गिराके पुत्र बृहस्पति दुहने वाले बने, और छन्द
 (वेद) पात्र बने, और तप और शाश्वत ब्रह्म अनुपम दुग्ध
 हुआ ॥ २० ॥ २१ ॥ हमने सुना है, कि-फिर इन्द्र आदि सब
 देवताओंने सुवर्णका पात्र लेकर इस पृथिवीको दुहा था ॥ २२ ॥
 इस समय इन्द्र बळड़ा बना और प्रभु सूर्य दुहने वाले बने और
 अमृतरूपी क्षीर निकला उससे देवता अपनी गुजर करते हैं २३

राजतं पात्रमादाय स्वधाममितविक्रमैः ॥ २४ ॥ यमो दैवस्व-
 तस्तेपामासीद्वत्सः प्रतापवान् । अन्तकश्चाभवद् दोग्धा कालो
 लोकरुपकालनः ॥ २५ ॥ नागैश्च श्रूयते दुग्धा वत्सं कृत्वा तु तत्त-
 कम् । अलावुं पात्रमादाय विपं क्षीरं नरोत्तम ॥ २६ ॥ तेषा-
 मैरावतो दोग्धा धृतराष्ट्रः प्रतापवानानागानां भरतश्रेष्ठ सर्पाणां
 च महीपते ॥ २७ ॥ तेनैव वर्तयन्त्युग्रा महाकाया विपोत्वणाः ।
 तदाहारास्तदाचारास्तदीर्यास्तदुपाश्रयाः ॥ २८ ॥ असुरैः श्रूयते
 चापि पुनर्दुग्धा वसुन्धरा । आयसं पात्रमादाय मायां शत्रुनिव-
 हिणीम् ॥ २९ ॥ विशोचनस्तु प्राहादिर्वत्सस्तेपामभूत्तदा ।
 ऋत्विक् द्विर्ध्या दैत्यानां मधुर्दोग्धा महाबलः ॥ ३० ॥ तथैते
 पाययाद्यापि सर्वे मायाविनोऽसुरा । वर्तयन्त्यमितप्रज्ञास्तदेपाम-
 मितं बलम् ॥ ३१ ॥ यज्ञैश्च श्रूयते तात पुनर्दुग्धा वसुन्धरा ।

सुना है, कि-फिर अमितपराक्रमी पितरोंने चोदीका पात्र लेकर
 स्वया(पिउपन्न) को दुहा था २४ प्रतापी यम उनका वत्स बना
 था। २५ । हे नरोत्तम ! यह सुना जाता है, कि-नागोंने तत्तक
 को वत्स बना कर अलावु (रामतुरई) के पात्रको लेकर विप-
 ल्पी क्षीरको दुहा था २६ और हे भरतश्रेष्ठ राजन् ! उन नाग
 और सर्पोंका प्रतापी धृतराष्ट्र दोग्धा (दुहने वाला) बना था २७
 तीव्रविष वाले महाशरीर सर्प उससे ही वर्ताव करते हैं उसका
 ही आहार करते हैं उससे आचरण करते हैं और उसके ही
 वीर्यका आश्रय करके रहते हैं ॥ २८ ॥ यह सुना है, कि-फिर
 असुरोंने लोहेका पात्र लेकर शत्रुओंका नाश करने वाली माया
 को पृथिवीसे दुहा था २९ उस समय प्रलटादका पुत्र विशोचन
 उनका बखड़ा बना था, और दानवोंका ऋत्विक् दो शिरवाला
 मधु नामक महाबली दैत्य दोग्धा बना था ३० अमित बुद्धि वाले

आमपात्रे महाराज पुरान्तर्धानमक्षयम् ॥ ३२ ॥ वत्सं वैश्रवणं
 कृत्वा यज्ञैः पुण्यजनैस्तदा दोग्धा रजतनाभस्तु पिता मण्डिवरस्य
 यः ॥ ३३ ॥ यज्ञानुजो महातेजास्त्रिशीर्षः सुमहातपाः । तेन ते
 वर्तयन्तीति परमर्षिर्वाच हं ॥ ३४ ॥ राक्षसैश्च पिशाचैश्च पुन-
 दुग्धा वसुन्धरा । शायं कपालमादाय भजा भोक्तुं नरर्षभ ३५
 दोग्धा रजतनाभस्तु तेषामासीत् क्रुद्धह । वत्सः सुमाली कौरव्य
 क्षीरं रुधिरमेव च ॥ ३६ ॥ तेन क्षीरेण यज्ञाश्च राक्षसाश्चामरो-
 पमाः । वर्तयन्ति पिशाचाश्च भूतसंघास्तथैव च ॥ ३७ ॥ पद्मपत्रे
 पुनर्दुग्धा गन्धर्वैः साप्सरोगेणैः । वत्सं चित्ररथं कृत्वा शुचीन्
 गन्धान् नरर्षभ ॥ ३८ ॥ तेषां च सुखिस्त्वासीद् दोग्धा भरतः

मायावी असुर आज्ञा कलं भी उस ही मायासे काम लेते हैं, यही
 उनका अपित बल है ३१ तात ! फिर सुना है, कि-यज्ञोंने
 वसुन्धरासे कच्चे पात्रमें अक्षय अन्तर्धान (गुप्त होनेकी विद्या)
 को दुहा था ३२ उस समय यज्ञ और राक्षसोंने वैश्रवण कुबेर
 को वत्स बनाया था, और मण्डिवरके पिता रजतनाभ उस समय
 दोग्धा बने थे ३३ उन यज्ञोंके छोटे भाई महातपस्वी रजतनाभ
 के तीन शिर हैं, उस अन्तर्धान विद्यासे वे यज्ञ दूसरेके शरीरमें
 प्रवेश करके अमत्यन्तरूपसे रहते हैं, इस बातको परमर्षिने कहा
 है ३४ फिर राक्षसोंने और पिशाचोंने मुरदेकी खोपड़ी लेकर
 अपनी सन्तानको तृप्त करनेके लिये हे नरर्षभ ! वसु (धन) को
 धारण करने वाली पृथिवीको दुहा था ३५ हे क्रुद्धह ! रजतनाभ
 उनका दोग्धा बना था, और सुमाली बड़डा हुआ था, हे कौरव्य !
 उनका क्षीर रुधिर था ३६ देवताओंकी समान यज्ञ राक्षस और
 पिशाच और भूतोंकी टोलियें उस क्षीरसे अपनी आजीविका
 चलाती हैं ३७ हे नरर्षभ ! फिर अप्सरा और गन्धर्वोंने पद्म-
 पत्रमें चित्ररथको वत्स बना कर पवित्र गन्धोंको वसुधासे दुहा

सत्तम । गन्धर्वा राजोऽतिवली महात्मा सूर्यसन्निभः ॥ ३६ ॥
 शैलैश्च श्रूयते राजन् पुनर्दुग्धा घसुन्धरा । औपधीर्न मूर्तिमती
 रत्नानि विविधानि च ॥ ४० ॥ वत्सस्तु मध्वानासीन्मेरुदुग्धा
 महागिरिः । पात्रन्तु शैलमेवासीत्तेन शैलाः प्रतिष्ठिताः ॥ ४१ ॥
 वीरुद्धिः श्रूयते राजन् पुनर्दुग्धा घसुन्धरा । पालाशं पात्रमादाय
 दग्धद्विन्नप्ररोहणम् ॥ ४२ ॥ दुदोह पुष्पितः सालो घत्सः सप्तो-
 ऽभवत्तदा । सेयं धात्री विधात्री च पावनी च घसुन्धरा ॥ ४३ ॥
 चराचरस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा योनिरेव च । सर्वकामदुग्धा दोग्ध्री
 सर्वसस्यप्ररोहिणी ॥ ४४ ॥ आसीदियं समुद्रान्ता मेदिनीति
 परिश्रुता । मधुकैटभयोः कृत्स्ना मेदसांभिपरिप्लुता ॥ ४५ ॥

था ३६ हे भरतसत्तम! सूर्यकी समान तेजस्वी अतिवली महात्मा
 गन्धर्वा राज सुखि उनका दोग्धा बना था ३६ हे राजन् ! सुना
 है, कि-पर्वतोंने पृथिवीसे औपधि और नानाप्रकारके मूर्तिमान्
 रत्नोंको दुहा था ४० उस समय हिमाचल पर्वत वत्स बना था
 और महागिरि मेरु दोग्धा बना था और शैलका ही पात्र बनाया
 गया था, इसीसे शैल (पर्वत) प्रतिष्ठित हैं ४१ हे राजन् ! फिर
 सुना है, कि-जिसकी नोक तोड़ डाली गई थी और जला दी
 गई थी ऐसे पलाशमय पात्रको लेकर लताओंने पृथिवीको दुहा
 था ४२ उस समय खिले हुए सालने दुहा था और पिलाखन
 बड़ड़ा बना था इस प्रकार यह पृथिवी धात्री अर्थात् माताकी
 समान पोषण करने वाली है और विधात्री भी है अर्थात् सबका
 अपनेमें उपसंहार करने वाली है ४३ और यह सकल चराचरों
 की प्रतिष्ठा और उत्पत्तिस्थान है, सब कामोंको देने वाली है
 और सब प्रकारके धान्योंको उत्पन्न करने वाली है ४४ पहिले
 यह समुद्र तककी सारी पृथिवी मधु और कैटभके मेदसे भर
 भर रही थी, अत एव ब्रह्मवादी पुरुष इसके मेदिनी देवी कहते

ततोऽभ्युपगमाद्वाङ्मः पृथोर्वैन्यस्य भारत । दुहितृत्वमनुमासा
 देवी पृथ्वीति चोच्यते । पृथुना पूर्विभक्ता च शोधिता च
 वसुन्धरा ॥ ४६ ॥ सस्पाकरवती स्फीता पुरपत्तनमालिनी ।
 एवम्प्रभाषो वैन्यः स राजाऽसीद्वा राजसत्तमः ॥ ४७ ॥
 नमस्यश्चैत्र पूज्यश्च भूतशामैर्न संशयः । ब्राह्मणैश्च महाभागै-
 र्देवदेदांगपारगैः ॥ ४८ ॥ पृथुरेव नमस्कार्यो ब्रह्मयोनिः सना-
 तनः । पार्थिवैश्च महाभागैः पार्थिवत्वमभीप्सुभिः ॥ ४९ ॥ आदि-
 राजो नमस्कार्यः पृथुञ्जन्यः प्रतापवान् । योधैरपि च विक्रान्तेः
 प्राप्सुकामैर्जयं युधि । पृथुरेव नमस्कार्यो योधानां प्रथमो
 नृपः ॥ ५० ॥ यो हि योद्धा रणं याति कीर्तयित्वा पृथुं नृपम् ।

हे ४५ हे भारत ! फिर वैनके पुत्र पृथुके पुत्रीरूपमें अद्भीकार
 करनेसे यह देवी उसकी पुत्री बन जानेके कारण पृथ्वी कह
 लाती है, इस पृथिवीको पृथुने शुद्ध किया था और इसके
 विभाग किये थे ४६ और इसको सस्योके आकर (स्नान)
 वाली कर दिया था और इसको राजधानी और व्यावहारिक
 नगरों वाली बना दिया था, वह राजसत्तम राजा पृथु
 ऐसे प्रभाव वाला था, प्राणियोंको अवश्य ही उसकी पूजा
 करनी चाहिये और उसकी प्रणाम करना चाहिये और वेद
 वेदाङ्गके पारंगामी महात्मा ब्राह्मणोंको भी ऐसा ही करना
 चाहिये ॥ ४८ ॥ ब्रह्मयोनि (अत्रिवंशज) सनातन (विष्णु-
 रूप) पृथु प्रणाम करने योग्य है पृथिवीके स्वामित्वको चाहने
 वाले महाभाग पार्थिवोंको राजाओंमें प्रथम वैनपुत्र प्रभाषी पृथु
 को प्रणाम करना चाहिये और शुद्धमें जीतना चाहने वाले
 विक्रमी योधाओंको भी योधाओंमें अग्रणी राजा पृथुको प्रणाम
 करना चाहिये ॥ ४९ ॥ ५० ॥ जो योधा राजा पृथुका कीर्तन
 करके रणमें जाता है वह पुरुष भयङ्कर संग्रामको कुशलपूर्वक

स घोररूपान् संग्रामान् जेभी तरति कीर्तिमान् ॥ ५१ ॥
 वैश्यैरपि च वित्ताढ्यैः पुण्यवृत्तिमनुष्ठितैः । पृथुरेव नमस्कार्यो
 वृत्तिदाता महायशाः ॥ ५२ ॥ तथैव शूद्रैः शुचिभिस्त्रिवर्णपरि-
 चारिभिः । आदिराजो नमस्कार्यः श्रेयःपरमभीष्टुभिः ॥ ५३ ॥
 एते वत्सविशेषाश्च दोग्धारः क्षीरमेव च । पात्राणि च मयोक्तानि
 किं भूयो वर्णयामि ते ॥ ५४ ॥ य इदं शृणुयान्नित्यं पृथोश्च-
 रितमादितः । पुत्रपौत्रसमायुक्तो मोदते सुचिरं भुवि ॥ ५५ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

जनमेजय उवाच । मन्वन्तराणि सर्वाणि विस्तरेण तपोधना
 तेषां सृष्टिं विष्टिं च वैशम्पायन कीर्तय ॥ १ ॥ यावन्तो मन-
 वश्चैव यावन्तं कालमेव च । मन्वन्तरमहं ब्रह्मन् श्रोतुमिच्छामि

तर जा ॥ है ॥ ५१ ॥ पुण्यमार्गका आश्रय लेने व ले धनवान्
 वैश्योंको भी वृत्ति (आजीविका) देनेवाले महायशस्वी पृथु
 को प्रणाम करना चाहिये ॥ ५२ ॥ इसी प्रकार तीनों वर्णोंकी
 सेवा करनेवाले और परम कल्याणको चाहनेवाले पवित्र शूद्रों
 को भी पहिले राजा पृथुको प्रणाम करना चाहिये ॥ ५३ ॥ मैंने
 तुझसे इन बच्चेकी, पात्रोंका, दुग्धने वालोंका और दुग्धोंका
 वर्णन करदिया अब मैं तुझसे और किस बातका वर्णन करूँ ५४
 जो पुरुष इस पृथुचरित्रको आरम्भसे सुनता है, वह पुरुष पृथिवी
 पर बहुत समय तक पुत्र पौत्रोंके साथ चिरकाल तक आनन्द
 करता है ॥ ५५ ॥ छटा अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥

जनमेजयने कहा, कि-हे तपोधन वैशम्पायनजी ! आप मुझसे
 सब मन्वन्तरोंका और उनकी सृष्टि तथा विलीन होनेका वृत्तान्त
 कहिये ? हे ब्रह्मन् ! जितने मनु होते हैं और जितने समय तक
 मन्वन्तर रहता है उसको मैं तत्त्वतः सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥

तत्त्वतः ॥ २ ॥ वैशम्पायन उवाच । न शक्यो विस्तरस्तात
 वस्तुं वर्षशतैरपि । मन्वन्तराणां कौरव्य संज्ञेयं त्वेव मे शृणु ३
 स्वायंभुवो मनुस्तात मनुः स्वारोचिपस्तथा । उत्तमस्तामसश्चैव
 रैवतश्चानुपस्तथा ॥४॥ वैवस्वतश्च कौरव्य साम्मतो मनुरुच्यते ।
 सावर्णिश्च मनुस्तात भौत्यो रौच्यस्तथैव च ॥ ५ ॥ तथैव मेरु-
 सावर्णाश्चत्वारो मनवः स्मृताः । अतीता वर्तमानाश्च तथैवाना-
 गताश्च ये ॥ ६ ॥ कीर्तिता मनवस्तात मयैते तु यथाश्रुतम् ।
 ऋषींस्तेषां प्रवक्ष्यामि पुत्रान् देवगणांस्तथा ॥ ७ ॥ मरीचिर-
 त्रिर्भगवानद्भिराः पुलहः क्रतुः । पुलस्त्यश्च वसिष्ठश्च सप्तैते ब्रह्मणः
 सुताः ॥ ८ ॥ उत्तरस्यां दिशि तथा राजन् सप्तर्षयोऽपरे । यामा
 नाम तथा देवा आसन् स्वायंभुरेऽन्तरे ॥ ९ ॥ आग्नीध्रश्चाग्नि-

वैशम्पायनजीने कहा, कि-हे कुर्वंशी तात ! मन्वन्तरोंके विस्तार
 का तो सौ वर्षमें भी कीर्तन नहीं किया जासकता, अतः तुम
 संक्षेपसे मुझसे सुनो ॥ ३ ॥ हे कौरव्य तात ! स्वायंभुवमनु
 तथा स्वारोचिप मनु उत्तम,तामस,रैवत और चानुप मनु बीत
 गए हैं) और वर्तमान (सातवें) मनु वैवस्वत कहलाते हैं (अब
 भविष्यके मन्वन्तरोंका वर्णन करते हैं) सावर्णि मनु भौत्य मनु
 रौच्य मनु और चार मेरुसावर्णि मनु कहे हैं (ब्रह्मसावर्णि
 रुद्रसावर्णि मेरुसावर्णि और रुद्रसावर्णि ये चारों मेरुपर्वत पर
 तप करके सिद्ध हो गए हैं इसलिये ये चारों मेरुसावर्णि कहलाते
 हैं) हे तात ! मैंने भूत भविष्यत् और वर्तमान मनुओंका शास्त्रा
 नुसर वर्णन कर दिया, अब मैं उनके ऋषि पुत्र और देव-
 ताओंका वर्णन करता हूँ ॥४-७॥ हे राजन् ! स्वायंभुव मन्वन्तर
 में मरीचि भगवान् अत्रि अद्भिर। पुलह क्रतु पुलस्त्य वसिष्ठ
 ये सात ब्रह्माजीके पुत्र थे हे राजन् ! ये सप्तर्षि थे और याम
 नामक देवता उत्तर दिशामें, रहने थे ॥८-९॥ और स्वायम्भुव

बाहुश्च मेघा मेरातिथिर्वसुः । ज्योतिष्मान् द्युतिमान् हव्यः सवनः
 पुत्र एव च ॥१०॥ मनोः स्वाम्यम्भुवर्षाते दश पुत्रा महाजसः ।
 एतत्ते प्रथमं राजन् मन्वन्तरमुदाहृतम् ॥ ११ ॥ आर्वो वशिष्ठ-
 पुत्रश्च स्तम्बः काश्यप एव च । प्राणो बृहस्पतिश्चैव दत्तो
 निश्च्यवनस्तथा ॥ १२ ॥ एते महर्षयस्तान् वायुपोक्ता
 महाव्रताः । देवाश्च तुषिता नाम स्मृताः स्वारोचिपेन्तरे ॥ १३ ॥
 हवित्रः सुकृतिर्ज्योतिरापोमूर्तिरयस्मयः । प्रथितश्च नभस्यश्च
 नभ ऊर्जस्तथैव च ॥ १४ ॥ स्वारोचिपस्य पुत्रास्ते मनोस्तान्
 महान्मनः । कीर्तिताः पृथिवीपाल महावीर्यपराक्रमाः ॥ १५ ॥
 द्वितीयमेतन् कथितं तव मन्वन्तरं मया । इद्रं तृतीयं वक्ष्यामि तन्नि-
 बोध नराधिप ॥ १६ ॥ वशिष्ठपुत्राः सप्तमन् वाशिष्ठा इति
 विश्रुताः । हिरण्यगर्भस्य सुता ऊर्जा नाम महाजसः ॥ १७ ॥

मनुके आग्नीध्र अग्निबाहु मेघा मेरातिथि वसु ज्योतिष्मान् द्युति-
 मान् हव्य सवन और पुत्र (नाम वाले) दश महाबली पुत्र थे,
 हे राजन् ! मैंने तुझसे यह पहिले मन्वन्तरका वर्णन कर दिया ११
 हे तात ! वायुने स्वारोचिप मन्वन्तरमें वसिष्ठके पुत्र आर्व स्तम्ब
 काश्यप प्राण बृहस्पति दत्त और निश्च्यवन ये सात महाव्रत-
 धारी अपि वनलाये हैं और तुषित नाम वाले देवता कहे हैं १२-१३
 हे तात ! महान्मा स्वारोचिप मनुके महावीर्यवान् और पराक्रमी
 हवित्र सुकृति ज्योति आप मूर्ति अयस्मय प्रथित नभस्य नभ और
 ऊर्ज नामक पुत्र हुए थे इनका तुझसे कीर्तन कर दिया १४ १५
 हे तात ! मैंने तुझसे यह दूसरे मन्वन्तरका वर्णन कर दिया,
 हे राजन् ! अब मैं तुमसे तीसरे मन्वन्तरका वर्णन करता हूँ,
 उसको तुम सुनो ॥ १६ ॥ उत्तम नामक मन्वन्तरमें वसिष्ठजीके
 सात पुत्र थे वे वसिष्ठ नामसे प्रसिद्ध थे, वे पहिले हिरण्यगर्भके
 पुत्र थे और उन महाबलीका नाम ऊर्जा था, इस प्रकार मैंने

ऋषयोऽत्र मया प्रोक्ताः कीर्त्यमानान्निबोध मे । श्रौतमेवान्
 महाराज दशपुत्रान् मनोरमान् ॥ १८ ॥ ईष ऊर्जस्तनूत्रश्च
 मधुर्माधव एव च । शुचिः शुक्रः सहश्चैव नभस्यो नभ एव च १९
 भान्वन्तर देवाश्च मन्वन्तरमुदाहृतम् । मन्वन्तरचतुर्थन्ते कथ-
 यिष्यामि तच्छृणु ॥ २० ॥ काव्यः पृथुस्तथैवाग्निर्जन्युर्धामा च
 भारत । कपीवानकपीर्वाश्च तत्र समर्षणोऽपरे ॥ २१ ॥ पुराणे
 कथितास्तात पुत्राः पौत्राश्च भारत । सत्या देवगणार्चैव ताम
 सस्यान्तरे मनोः ॥ २२ ॥ पुत्रार्चैव प्रवक्ष्यामि तामसस्य मनो-
 नृप । द्युनिस्तपस्यः सुतपास्तपोमूलस्तपोधनः ॥ २३ ॥ तपो-
 रतिरकृन्मापस्तम्बी धन्वी परन्तपः । तामसस्य मनोरेते दश
 पुत्रा महावलाः ॥ २४ ॥ वायुप्रोक्ता महाराज पञ्चमं तदनन्तरम् ।
 वेदवाहुर्पदुत्रश्च मुनिर्वेदशिरास्तथा ॥ २५ ॥ हिरण्यरोमाः

ऋषिर्गोमे कह दिया, हे महाराज ! अब तुम उद्धम मनुके दश
 मनोहर पुत्रोंको मेरे कहनेसे सुनो; ईष ऊर्ज तनूज मधु और माधव
 शुचि शुक्र सह नभस्य और नभ ये सात उनके पुत्र थे और उस
 मन्वन्तरमें भानु नामक देवता थे, उम प्रहार (यह तीसरा) मन्व-
 न्तर कह दिया अब मैं तुमसे चौथे मन्वन्तरको कहता हूँ, उसको
 तुम सुनो ॥ १७-२० ॥ उस तामस नामक मन्वन्तरमें काव्य
 पृथु अग्नि जन्यु धामा कृपीवान् और अकृपीवान् नामक सात
 ऋषि थे ॥ २१ ॥ हे भारत ! पुराणोंमें तामसमन्वन्तरके पुत्र
 और पौत्रोंका कीर्तन है और सत्य नामक देवता वताण हैं २२
 हे नृप ! अब मैं तुमसे तामस मनुके पुत्रोंका कीर्तन करता हूँ,
 तामस मनुके द्युति तपस्य सुतपा तपोमूल तपोधन तपोरति
 अकृन्माप तम्बी धन्वी और परन्तप नामक दश महावली पुत्र
 थे ॥ २३ ॥ इन सबका वायुने वर्णन किया है, हे महाराज ! अब
 पञ्चम मन्वन्तरका कीर्तन करते हैं, उस मन्वन्तरमें वेदवाहु यदु-

पर्जन्य ऊर्ध्ववाहुरश्च सोमजः । सत्यनेत्रस्तथाऽऽत्रेय एते सप्तर्ष-
योऽपरे ॥२६॥ देवारचाभूतरजस्तथा प्रकृतयोऽपरे । परिसवरश्च
रैभ्यश्च मनोरन्तरमुच्यते ॥२७॥ अथ पुत्रानिमांस्तस्य निबोध
गदतो मम । धृतिमानव्ययो युक्तस्तरचदर्शी निरुत्सुकः ॥ २८ ॥
अरण्यश्च प्रकाशश्च निर्मोहः सत्यवाक्कृती । रैवतस्य मनोः
पुत्राः पञ्चमं चैतदन्तरम् ॥ २९ ॥ पृष्ठन्ते संप्रवक्ष्यामि तन्नि-
बोध नराधिप । भृगुर्नभो विवस्वाश्च सुधामा विरजास्तथा ३०
अतिनामा सहिष्णुश्च सप्तैते वै महर्षयः । चान्द्रपस्यान्तरे तात
मनोर्देवानिमान् मृगु ॥ ३१ ॥ आद्याः प्रभूता ऋषयः पृथग्भावा
दिर्वाकसः । लेखाश्च नाम राजेन्द्र पञ्च देवगणाः स्मृताः ।
ऋषेरंगिरसः पुत्रा महान्मानो महौजसः ॥ ३२ ॥ नाड्वलेया
महाराज दश पुत्राश्च विश्रुताः । ऊरुप्रभृतयो राजन् पृष्ठं मन्व-

मुनि-वेदशिग हिरण्यरोमा पर्जन्य सोमपुत्र ऊर्ध्ववाहु औरअत्रि-
पुत्र सत्यनेत्र ये सात ऋषि थे और उस मन्वन्तरमें रजोगुण-
रहित देवता थे और पारिसव्य और रैभ्य नामक देवता थे २४-२७
अब तुम मुझसे उनके पुत्रोंको सुनो, धृतिमान् अव्यय युक्त तरच-
दर्शी निरुत्सुक अरण्य प्रकाश निर्मोह सत्यवाक् कृती ये रैवत
मनुके पुत्र हैं, यह पञ्चममन्वन्तरका वर्णन कर दिया, इसके उप-
रान्त हे नराधिप ! अब मैं तुझसे छठे मन्वन्तरका कीर्तन करता
हूँ, उस समय भृगु नाम विवस्वान् और सुधामा और विरजा
अतिनामा तथा सहिष्णु ये सात महर्षि थे, हे तात ! अब तुम
चान्द्रप मन्वन्तरके इन देवताओंको सुनो ॥२८-३१॥ आद्य प्रभूत
ऋषि पृथग्भाव और लेखा नामक स्वर्गमें रहने वाले पाँच देवता
थे, ये सब अह्निरा ऋषिके पुत्र थे, महात्मा थे और महाबल-
वान् थे और नड्वलाके पुत्र थे अर्थात् उनकी माताका नाम नड्व-
ला था और हे राजन् ! इस मनुके ऊरु आदि दस प्रशिद्ध पुत्र

न्तरं स्मृतम् ॥ ३३ ॥ अत्रिर्वशिष्ठो भगवान् कश्यपश्च महा-
 नृपिः । गौतमोऽथ भरद्वाजो विश्वामित्रस्तथैव च ॥ ३४ ॥ तथैव
 पुत्रो भगवान् ऋचीकस्य महात्मनः । सप्तमो जमदग्निश्च ऋषयः
 सांपतं दिवि ॥ ३५ ॥ साध्या रुद्राश्च विरवे च मरुतो वसव-
 स्तथा । आदित्या चाश्विनौ चापि देवौ वैवस्वतौ स्मृतौ ॥ ३६ ॥
 मनोवैवस्वतस्यैते वर्तन्ते सांपतेऽन्तरे । इच्छाकुममुखाश्चैव
 दश पुत्रा महात्मनः ॥ ३७ ॥ एतेषां कीर्तितांस्तु महर्षीणां महौ-
 जसाम् । राजपुत्राश्च पौत्राश्च दिक्षु सर्वासु भारत ॥ ३८ ॥
 मन्वन्तरेषु सर्वेषु प्राग्दिशः सप्तसप्तकाः । स्थिता लोकव्यवस्थार्थं
 लोकसंरक्षणाय च ॥ ३९ ॥ मन्वन्तरे व्यतिक्रान्ते चत्वारः सप्तका
 गणाः । कृत्वा कर्म दिवं यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम् ॥ ४० ॥
 ततोऽन्ये तपसा युक्ताः स्थानमापूरयन्त्युत । अतीता वर्तमानाश्च
 हैं, हे रामन् ! इस प्रकार छठा मन्वन्तर कह दिया ॥ ३२-३३ ॥
 और इस वर्तमान समयमें स्वर्गमें अत्रि-भगवान् वसिष्ठ महर्षि
 कश्यप गौतम भरद्वाज विश्वामित्र और सातवें महात्मा ऋचीक
 के पुत्र जमदग्नि ये सात प्रसिद्ध हैं ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ साध्य रुद्र
 विरवेदेवा मरुत् वसु आदित्य और अश्विनीकुमार ये देवता
 वैवस्वत कहलाते हैं और इस वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तरमें वर्त
 मान हैं और इस महात्मा वैवस्वत मनुके इच्छाकु आदि दश
 पुत्र हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ उपरिवाणित अमित ओजवाले महर्षियोंके
 राजपुत्र और पौत्र सब दिशाओंमें व्याप्त हैं ॥ ३८ ॥ सब मन्व-
 न्तरोंमें उडझास पवन पूर्वकल्पकी समान लोकोंकी व्यवस्था
 करनेके लिये और लोकोंकी रक्षा करनेके लिये स्थित रहते हैं ३९
 और मत्येक मन्वन्तरके व्यतीत होने पर अट्टाईस पवन अपने
 कर्मको (पूर्ण) करके स्वर्गमें अनामय ब्रह्मलोकको प्राप्त
 होजाते हैं ॥ ४० ॥ तत्र दूसरे वायु तपोव्रतसे मन्वन्तरके

क्रमेणैतेन भारत ॥ ४१ ॥ एतान्युक्तानि कौरव्य सप्तातीतानि
 भारत । मन्वन्तराणि पट् चापि निबोधानागतानि मे ॥ ४२ ॥
 सावर्णा मनवस्तात पञ्च तांश्च निबोध मे । एको वैवस्वतस्तेपां
 चत्वारस्तु प्रजापतेः ॥ ४३ ॥ परमेष्ठिसुतास्तात मेरुसावर्णातां
 गताः । दक्षस्यैते हि दौहित्रा मियायास्तनया नृपामहान्तस्तपसा
 युक्ता मेरुपृष्ठे महौजसः ॥ ४४ ॥ रुचेः प्रजापतेः पुत्रो राँच्यो
 नाग मनुः स्मृतः । भूत्यां चोत्पादितो देवद्यां भौत्यो नाम रुचेः
 सुनः ॥ ४५ ॥ अनागताश्च सप्तैते स्मृता दिवि महर्षयः । मनो-
 रन्तरमासाद्य सावर्णस्येह तान् शृणु ॥ ४६ ॥ रामो व्यासस्तथा-
 ज्ञेयो दीप्तिमानिति विश्रुतः । भारद्वाजस्तथा द्रौणिरश्वत्यामा
 महाद्युतिः ॥ ४७ ॥ गौतमस्यात्मजश्चैव शरद्धान्नाम गौतमः ।

अन्तमें उनके पद पर आरूढ़ होकर उनके स्थानको पूर्ण कर
 देते हैं (इस बातसे यह सूचित किया है, कि-कर्मियोंकी भी
 परम्परासे मुक्ति होजाती है) बीते हुए और वर्तमान सात
 (तथा एक भविष्यका इस प्रकार आठ) मन्वन्तरोंका वर्णन
 कर दिया, अब भविष्यके छ मन्वन्तरोंको तुम श्रुतसे
 सुनो ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ हे तात ! सावर्णि मनु पाँच है, उनमें
 एक वैवस्वत है और चार प्रजापति परमेष्ठीके पुत्र हैं और ये
 दक्षके घेवने हैं तथा मियाके पुत्र हैं और मेरुपर्वत पर बड़ा भारी
 तप करके ये महा औज वाले मनु मेरुसावर्णि नामके प्राप्त
 होगए हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ प्रजापति रुचिके पुत्र राँच्य मनु कह-
 लाते हैं और रुचिके पुत्र भूतिमें उत्पन्न होनेसे भौत्य मनु कह-
 लाने है ॥ ४५ ॥ अब मन्वन्तर सावर्णिके जो सात अनागत
 (भविष्यत्) सप्तर्षि स्वर्गमें विराजमान हैं, उन (अष्टम मन्वन्तर)
 के ऋषियोंको तुम सुनो ॥ ४६ ॥ राम व्यास अत्रिपुत्र दीप्ति-
 मान भरद्वाजगोत्री महाकाङ्क्षिमान द्रौणपुत्र अश्वत्यामा और

कौशिके गालवश्चैव रुः कारयण एव च ॥ ४८ ॥ एते सप्त
 महात्मानो भविष्या मुनिसत्तमाः । ब्रह्मणः सदृशाश्चैते धन्याः
 सप्तर्षयः स्मृताः ॥ ४९ ॥ अभिजात्याथ तपसा मन्त्रव्याकरणै-
 स्तथा । ब्रह्मलोकं प्रतिष्ठास्तु स्मृताः सप्तर्षयोऽमलाः ॥ ५० ॥
 भूतभव्यभवज्ज्ञानं बुद्ध्वा चैव तु ये स्वयम् । तपसा वै प्रसिद्धा
 ये संगताः प्रविचिन्तकाः ॥ ५१ ॥ मन्त्रव्याकरणाद्यैश्च ऐश्व-
 र्यात् सर्वशश्च ये । एतान् भार्यान् द्विजो ज्ञात्वा नैष्ठिकानि च
 नाम च ॥ ५२ ॥ एत ते सप्तभिरश्चैव गुणैः सप्तर्षयः स्मृताः ।
 दीर्घायुगो मन्त्रकृत ईश्वरा दीर्घवक्षुपः ॥ ५३ ॥ बुद्ध्या प्रत्यक्ष-
 धर्माणो गोत्रप्रवर्तकास्तथा- । कृतादिषु युगाख्येषु सर्वेष्वेव पुनः
 पुनः ॥ ५४ ॥ प्रवर्तयन्ति ते वर्णानाश्रमाश्चैव सर्वशः । सप्त-

गौतमके पुत्र शरद्वान् नामक गौतम (कृपाचार्य) कौशिक
 गालव और कारयणगोत्री रुः ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ये ब्रह्माजीकी
 समान धन्यवाद देनेके योग्य भविष्यके सात मुनिसत्तम महात्मा
 सप्तर्षि कहे ४९ कहा है, कि-ये जन्म तप मन्त्र और व्याकरणसे
 निर्मल सात ऋषि ब्रह्मलोकमें रहते है ५० ये ऋषि आने तपसे
 भूत भविष्य और वर्तमान कालके सब वृत्तान्तको जान कर
 प्रसिद्ध होगए हैं और एकत्रित होकर विचार करते रहते हैं ५१
 और ये मन्त्र व्याकरण और ऐश्वर्यके कारण भी (सर्वत्र
 प्रसिद्ध हैं) ब्रह्मण इन भरण करने वाले ऋषियोंको और
 इनके नैष्ठिक नामोंको जानकर (कल्याण पाता है) ॥ ५२ ॥
 ये सातों अपने सात गुणोंसे सप्तर्षि कहलाते है, ये दीर्घायु है,
 मन्त्रद्रष्टा हैं, ईश्वर हैं और दूरदर्शी हैं ५३ और अपनी बुद्धिसे
 सबको प्रत्यक्ष देखनेके धर्म वाले है, और गोत्रप्रवर्तक (गोत्रके
 चलाने वाले) हैं, ये सत्यधर्ममें यथायथा रहने बाल महाभाग
 सप्तर्षि सब सत्ययुग आदि युगोंमें सर्वत्र (ब्रह्मण आदि चारों

र्णयो महाभागाः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ५५ ॥ तेषां चैवान्वयो-
 त्पन्ना जायन्तीह पुनः पुनः । मन्त्रब्राह्मणकर्तारो धर्मं प्रशियिले
 तथा ॥ ५६ ॥ यस्माच्च वरदाः सप्त परेभ्य एव याचिताः ।
 तस्मान्न कालो न वयः प्रमाणमृषिभावनै ॥ ५७ ॥ एष सप्त-
 पिकोद्देशो व्याख्यातस्ते मया नृपासावर्णस्य मनोः पुत्रारभविष्या-
 ङ्ङ्गु सत्तम ॥ ५८ ॥ वरीयांश्चावरीयांश्च सम्मतो धृतिमान्
 वसुः । चरिष्णुरप्रधृष्णुरश्च वाजः सुमतिरेव च । सावर्णस्य
 मनोः पुत्रा भविष्या दश भारता ॥ ५९ ॥ प्रथमे मेरुसावर्णे प्रव-
 द्यामि मुनीङ्ङ्गु । मेधातिथिस्तु पौलस्त्यो वसुः कश्यप एव
 च ॥ ६० ॥ ज्योतिष्मान् भार्गवश्चैव द्युतिमानंगिरास्तथा सवन-
 श्चैव वासिष्ठ आत्रेयो हृदयेवाहन ॥ ६१ ॥ पौलहः सत्य इत्येते

वर्णोंको और (ब्रह्मचर्य आदि चारों) आश्रमोंको प्रवृत्त करते
 हैं । ५४ । ५५ । ये मन्त्रभाग और ब्राह्मणभागके प्रवर्तक धर्मके
 शिथिल होने पर जिन वंशोंमें उत्पन्न हुए होते हैं उन ही वंशों
 में बारम्बार प्रकट होते हैं ॥ ५६ ॥ ये सातों वर देने वाले हैं
 और दूसरे पुरुष इनसे याचना करते हैं अत एव इन
 ऋषियोंके सम्बन्धमें विचार करने पर इनका समय नहीं बताया
 जा सकता है, न इनकी अवस्थाका परिमाण बताया जा सकता
 है ५७ हे राजन् ! मैंने तुझसे यह सप्तर्षियोंकी बात कही, अब
 हे सत्तम ! तू सावर्णि मनुके होने वाले पुत्रोंको सुन ५८ हे भारत !
 वरीयान् अवरीयान् सम्मत धृतिमान् वसु चरिष्णु अधृष्णु वाज
 और सुमति (एक और) ये दश सावर्णि मनुके भविष्यत् पुत्र
 हैं ५९ अब मैं प्रथम मेरुसावर्णिके ऋषियोंको कहता हूँ, उनको
 तुम सुनो, पुलस्त्यवंशी मेधातिथि कश्यपगोत्री-वसु ज्योतिष्मान्-
 भार्गव और द्युतिमान्-वासिष्ठपुत्र-सवन और अत्रिपुत्र-
 हृदयेवाहन और पुलहपुत्र-सत्य ये सात मन्वन्तरके सप्तर्षि हैं

मुनयो रोहितेन्तरे । देवतानां गणास्तत्र पुत्रोऽप्येव नराधिप ॥ ६२ ॥
 दत्तपुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापतेः । मनोः पुत्रो धृष्टकेतुः
 पञ्चहोत्रो निराकृतिः ॥ ६३ ॥ पृथुः श्रवा भूरिधामा ऋर्वाकोष्ठ-
 हितो गयः । प्रथमस्य तु सावर्णेर्नैव पुत्रा महौजसः ॥ ६४ ॥
 दशमे त्वथ पर्याये द्वितीयस्यान्तरे मनोः । हविष्मान् पौलहश्चैव
 सृकृतिश्चैव भार्गवः । आपो मूर्तिस्तथाऽऽत्रेयो वासिष्ठश्चाष्टमः
 स्मृतः ॥ ६५ ॥ पौलस्त्यः प्रामतिश्चैव नभोगश्चैव काश्यपः ।
 अङ्गिरा नभसः सत्यः सप्तैवे परमर्षयः ॥ ६६ ॥ देवतानां गणौ
 द्वौ तौ ऋषिमन्त्राश्च ये स्मृताः । मनोः सुतोत्तमौजारच निकुपञ्चथ
 वीर्यवान् ॥ ६७ ॥ शतानीको निरामित्रो वृषसेनो जयद्रथः ।
 भूरिद्युम्नः सुवर्वाश्च दश त्वेते मनोः सुताः ॥ ६८ ॥ एकादशेऽथ
 पर्याये तृतीयस्यान्तरे मनोः । तस्य सप्त ऋर्षीश्चापि कीर्त्य-
 और उस मन्वन्तर देवताओंके तीन गण थे ॥ ६०-६२ ॥
 वे दत्तके पुत्र रोहित प्रजापतिके पुत्र है, धृष्टकेतु पञ्चहोत्र निरा-
 कृति पृथु श्रवा भूरिधामा ऋर्वाक कोष्ठहन गय, प्रथम सावर्णिके
 ये नौ महाबलवान् पुत्र हैं ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ दशवे और दूसरे दत्त-
 सावर्णि मन्वन्तरमें पुलहगोत्री हविष्मान् भृगुवंशी सृकृति अत्रि-
 गोत्री आपोमूर्ति और वासिष्ठ पुत्र अष्टम और पुनस्न्यवंशी
 प्रामति और काश्यपवंशी नभोग और अङ्गिरावशी नभमके पुत्र
 सत्य ये सात परमर्षि होंगे ॥ ६६ ॥ और उस समय (दक्षिण-
 मार्गके अभिमानी अग्नि और उत्तर मार्गके अभिमानी ध्रुम ये)
 दो देवताओंके गण होंगे और मन्वन्तरिपात्र देवता भी होंगे, और
 मनोः सुत निकुपञ्च वीर्यवान् शतानीक निरामित्र वृषसेन जयद्रथ
 भूरिद्युम्न तथा सुवर्वा ये दश मनुके पुत्र होंगे एसा कहा है ६७ ६८ ॥
 एकादशमन्वन्तरके और तीसरे रुद्रसावर्णि मन्वन्तरके ऋषि और
 देवताओंको भी मेरे कीर्तन करनेसे । सुनो ॥ ६९ ॥ उस समय

मानान्निबोध मे ॥६६॥ हविष्मान् काश्यपश्चापि हविष्मान्यथ
 भार्गवः । तरुणश्च तथात्रेयो वासिष्ठस्त्वनघस्तथा ॥ ७० ॥
 अङ्गिराश्चोदधिष्णाश्च पौलस्त्यो निश्वरस्तथा । पुलहश्चाग्नितेजाश्च
 भाव्याः सप्त महर्षयः ॥ ७१ ॥ ब्रह्मणस्तु सुता देवा गणास्तेषां
 त्रयः स्मृताः । संवर्तकः सुशर्मा च देवानीकः पुरुद्वहः ॥ ७२ ॥
 क्षेमधन्वा दृढायुश्च आदर्शः पण्डितो मनुः । सावर्णस्य तु पुत्रा
 वै तृतीयस्य नव रमताः ॥७३॥ चतुर्थस्य तु सावर्णेऽर्चणीन् सप्त
 निबोध मे । द्युतिर्वसिष्ठपुत्रश्च आत्रेयः सुतपास्तथा ॥ ७४ ॥
 अङ्गिरास्तपसो मूर्तिस्तपस्वी काश्यपस्तथा । तपोशनश्च पौलस्त्यः
 पौलहश्च तपो रविः ॥७५॥ भार्गवः सप्तमस्तेषां विक्षेपस्तु ततो
 धृतिः । पञ्च देवगणाः प्रोक्ता मानसा ब्रह्मणश्च ते ॥ ७६ ॥
 देववायुर्दूरश्च देवश्रेष्ठो विदूरथः । मित्रवान् मित्रदेवश्च
 मित्रसेनश्च मित्रकृत् । मित्रवाहुः सुवर्चाश्च द्वादशस्य मनोः

काश्यपगोत्री हविष्मान् भृगुवंशी हविष्मान् अत्रिपुत्र तरुण और
 वसिष्ठपुत्र अनघ अङ्गिरावंशी उदधिष्णा और पुलस्त्यपुत्र
 निश्वर और अग्निकी समान तेजस्वी पुलह ये सात महर्षि
 होंगे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ उस समय ब्रह्माजीके पुत्र देवता उनके
 तीन गण होंगे और इन तीसरे सावर्णि मनुके संवर्तक सुशर्मा देवा-
 नीक पुरुद्वह क्षेमधन्वा दृढायु आदर्श पण्डक मनु ये नौ पुत्र कहे
 हैं ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ अब तुम चतुर्थ सावर्णिके अर्थात् वारहवें
 मन्वन्तरके ऋषियोंको सुनो, वसिष्ठपुत्र द्युति अत्रिवंशी सुतपा
 तपोमूर्ति अङ्गिरा तपस्वी काश्यप पुलस्त्यवंशी तपोशन पुलह-
 वंशी तपोरवि और सातवें भृगुवंशी धैर्यवान् विक्षेप सप्तर्षि होंगे,
 और पाँच देवता कहे हैं वे ब्रह्माजीके मानस पुत्र होंगे, देववायु
 अदूर देवश्रेष्ठ विदूरथ मित्रवान् मित्रदेव मित्रसेन मित्रकृत् मित्र
 और सुवर्चा ये बारहवें मनुके पुत्र होंगे ॥ ७५-७७ ॥ तेरहवें

सुताः ॥ ७७ ॥ त्रयोदशोऽथ पर्याये भाव्ये मन्वन्तरे मनोः ।
 अङ्गिराश्चैव धृतिमान् पौलस्त्यो हृद्यवाहनः ॥ ७८ ॥ पौल-
 हस्तश्चदर्शी च भार्गवश्च निरुत्सकः ।-निष्प्रकम्पस्तथात्रेयो
 निर्मोहः करयणस्तथा ॥ ७९ ॥ सुतपश्चैव वासिष्ठः सप्तैते तु
 महर्षयः । त्रय एव गणाः प्रोक्ता देवतानां स्वयम्भुवा ॥ ८० ॥
 त्रयोदशस्य पुत्रास्ते विज्ञेयास्तु रुचेः सुता । चित्रसेनो विचित्रश्च
 नयो धर्मभृतो धृत्तः ॥ ८१ ॥ सुनेत्रः क्षत्रवृद्धिश्च सुतपा निर्भयो
 दृढः । रौच्यस्यैते मनोः पुत्रा अन्तरे तु त्रयोदशे ॥ ८२ ॥ चतु-
 दशोऽथ पर्याये भौत्यस्यैवान्तरं मनोः । भार्गवो ह्यतिवाहुश्च
 शुचिराङ्गिरसस्तथा ॥ ८३ ॥ युक्तश्चैव तथात्रेयो शुक्रो वासिष्ठ
 एव च । अजितः पौलहश्चैव अन्त्याः सप्तर्षयश्च ते ॥ ८४ ॥
 एतेषां कल्पे उत्थाय कीर्तनात् सुखमेतत् । यशश्चामोति सुम-
 ह्दायुश्चैव भवेत्तथा ॥ ८५ ॥ अतीतानागतानां वै महर्षीणां

भावी मन्वन्तरमें अङ्गिरावंशी धृतिवान् और पुलस्त्यवंशी हृद्यप
 और पुलहवंशी तन्त्रदर्शी और भृगुवंशी निरुत्सुक अत्रिवंशी
 निष्प्रकम्प और करयणगोत्री निर्मोह और वासिष्ठवंशी सुतपा ये
 सात महर्षि होंगे और ब्रह्माजीने देवताओंके तीन गण कहे
 हैं ॥ ७८ ॥ ८० ॥ अब तू त्रयोदश मनु रुचिके पुत्रोंको सुत
 चित्रसेन विचित्र नप धर्ष धृत् सुनेत्र क्षत्रवृद्धि सुतपा निर्भय दृढ
 ये तेरहवें मन्वन्तरमें रौच्य नामक मनुके पुत्र होंगे ॥ ८१ ॥ ८२ ॥
 चौदहवें मन्वन्तरमें भौत्य नामक मनुके भार्गव अतिवाहु अङ्गिर-
 संगोत्री शुचि आत्रेय युक्त वासिष्ठपुत्र शुक्र पुलहवंशी अजित ये
 अन्तिम सप्तर्षि हैं ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ प्रायःकाल उठ कर इनका
 कीर्तन करनेसे मनुष्य सुखपाता है और वह यश तथा बड़ी भारी
 आयुको पाता है ॥ ८५ ॥ जो मनुष्य भूत और भविष्यत्के
 महर्षियोंका (कीर्तन करता है वह पुरुष सदा सुख पाता है)

सदा नरः । देवतानां गणाः, प्रोक्ताः पञ्च वै भरतर्षभ ॥८६॥
 तरङ्गभीरुर्वप्रश्च तरस्वानुग्र एव । अभिमानी प्रवीणश्च जिष्णुः
 संक्रन्दनस्तथा ॥ ८७ ॥ तेजस्वी सवलश्चैव भौत्यस्यैते मनोः
 सुताः । भौत्यस्यैवाधिकारे तु पूर्णं कल्पस्तु पूर्यते ॥८८॥ इत्येते
 नामतोऽतीता मनवः कीर्तिता मया । तैरियं पृथिवी तात समु-
 द्रान्ता सपत्न्या ॥ ८९ ॥ पूर्णं युगसहस्रन्तु परिपाल्या नरा-
 धिप । प्रजाभिश्चैव तपसा संहारस्तेषु नित्यशः ॥ ९० ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

मन्वन्तरवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

जनमेजय उवाच । मन्वन्तरस्य संख्यानां युगानां च महामते ।
 ब्रह्मणोऽहः प्रमाणं च वक्तुमर्हसि मे द्विज ॥ १ ॥ वैशम्पायन
 उवाच । अहोरात्रं भजेत् सूर्यो मानवं लौकिकं परम् । तामु-
 पादाय गणनां शृणु संख्यापरिन्दम ॥२॥ निमेषैः पञ्चदशभिः

हे भरतर्षभ ! उस समयके पाँच देवताओंके गण होंगे यह कहा
 है ॥ ८६ ॥ भौत्यमनुके तरंगभीरु वम तरस्वान् उग्र अभिमानी
 प्रवीण जिष्णु तथा संक्रन्दन तेजस्वी और सवल ये पुत्र हैं और
 भौत्य मनुके अधिकारके पूर्ण होने पर कल्प पूरा होजाता है ८७
 ये भैने नाम लेकर मनुओंका कीर्तन किया, हे नराधिप ! वे तप
 करके सदास युग पूर्ण होने तक समुद्रतकवी नगरों वाली पृथ्वी
 का और प्रजाका पालन करते हैं और अपनेमें संहार भी कर
 लेते हैं ॥८८॥९०॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥ छ

जनमेजयने कहा, कि-हे द्विज ! आप मुझसे मन्वन्तरोंके
 युगोंकी संख्या बताइये और हे महामते ! ब्रह्माजीके दिनका
 प्रमाण भी मुझे बताइये ॥ १ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-
 सूर्य मनुष्योंके दिन और रात्रिका विभाग करता है, उस हमारी
 गणनाको लेकर द्विपरार्थरूप तककी पर ब्राह्मणनाको सुनो २

काष्ठा त्रिंशन्तु ताः कला । त्रिंशत्कलो मुहूर्तस्तु त्रिंशता तैर्मनी-
 पिणः ॥ ३ ॥ अहोरात्रमिति प्राहुश्चन्द्रमूयगतिं नृप । विशेषे-
 ण तु सर्वेषु अहोरात्रे च नित्यशः ॥ ४ ॥ अहो रात्राः पञ्च-
 दश पक्ष इत्यभिशाब्दितः । दौ पक्षौ तु स्मृतौ मासो मासौ द्वाव-
 तुरुच्यते ॥ ५ ॥ अब्दं द्वययश्चक्रन्तु अयनं त्वष्टुभिस्त्रिभिः ।
 दक्षिणं चोत्तरं चैव संख्यातत्तत्रविशारदैः ॥ ६ ॥ माने मानेन
 यो मासः पक्षद्वयसपन्वितः । पितृणां तदहोरात्रमिति काल-
 विदो विदुः ॥ ७ ॥ कृष्णपक्षस्त्वहस्तेषां शुक्लपक्षस्तु शर्वरी ।
 कृष्णपक्षो त्वहः श्राद्धं पितॄणां वर्तते नृप । ८ ॥ मानुषेण तु

पन्द्रह निमेषोंकी एक काष्ठा होती है और तीस काष्ठांकी एक
 कला होती है और तीस कलाका एक मुहूर्त होता है और विद्वान्
 पुरुष तीस मुहूर्तको एक रात दिन कहते हैं और इन्हीमें चन्द्रमा
 और सूर्य अपनी गति करते हैं, सब शास्त्रोंमें दिन और रात्रिके
 विषयमें यही लिखा है ॥ ३-४ ॥ पन्द्रह दिन रातका नाम पक्ष
 कहलाता है और दो पक्षोंको मास कहते हैं और दो मासोंकी
 ऋतु कहजाती है ॥ ५ ॥ तीन ऋतुओंका अयन होता है और
 दो अयनोंका वर्ष कहा है और संख्याके तत्त्वमें विशारद पुरुषों
 ने उन दोनों अयनोंका नाम दक्षिणायन और उत्तरायण रक्खा
 है ॥ ६ ॥ इस मानसे मान करने पर जो दो पक्षों वाला मास
 होता है उसको कालवेत्ता पुरुष पितरोंका दिन रात कहते हैं ७
 कृष्णपक्ष उनका दिन होता है और शुक्लपक्ष उनकी रात्रि होती
 है, अत एव हे नृप ! कृष्णपक्षरूप दिनमें पितरोंका श्राद्ध होता है
 (तात्पर्य यह है, वि-चन्द्रलोकमें रहने वाले पितर शुक्लपक्षमें
 चन्द्रमासे ढके हुए सूर्यको नहीं देखते हैं और कृष्णपक्षमें सूर्य
 और चन्द्रमाके अभिमुख होने पर सूर्यको देखते हैं इसी लिये शुक्ल-
 पक्षको पितरोंकी रात्रि और कृष्णपक्षको पितरोंका दिन कहा

मानेन यो वै संवत्सरः स्मृतः । देवानां तदहोरात्रं दिवं
 चैवोत्तरायणम् । दक्षिणायनं स्मृत्वा रात्रिः प्राज्ञैस्तत्त्वार्थ-
 कोविदैः ॥ ६ ॥ दिव्यमद्दं दशगुणमहोरात्रं मनोः स्मृतम् ।
 अहोरात्रं दशगुणं मानवः पक्ष उच्यते ॥ १० ॥ पक्षो दशगुणो
 मासो मासैर्द्वादशभिर्गुणैः । ऋतुर्मनुनां संपोक्तः प्राज्ञैस्तत्त्वार्थ-
 दर्शिभिः । ऋतुत्रयेण त्वयनं तद् द्वयेनैव वत्सरः ॥ १५ ॥ चत्वार्येव
 सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम् । तावच्छती भवेत् सन्ध्यासन्ध्यांशश्च
 तथा नृप ॥ १२ ॥ त्रीणि वर्षसहस्राणि त्रेता स्यात् परिमाणतः ।
 तस्याश्च त्रिंशती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ १३ ॥ तथा
 वर्षसहस्रे द्वे द्वापरं परिकीर्तितम् । तस्यापि द्विंशती सन्ध्या
 सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ १४ ॥ कलिर्वर्षसहस्रञ्च संख्यवातोऽत्र
 है) ॥ ८ ॥ मनुष्योंके मानसे जो सम्वत्सर कहा है वह देव-
 ताओंका एक रात दिन है, तत्त्वको जाननेमें चतुर बुद्धिमानोंने
 उत्तरायणको देवताओंका दिन कहा है और दक्षिणायनको
 रात्रि कहा है ॥ ६ ॥ दश दिव्य वर्षोंका मनुका एक अहोरात्र
 कहा है और दश दिनका मनुका एक पक्ष कहलाता है ॥ १० ॥
 दश पक्षोंका एक मास होता है और चारह गुणे मासोंकी एक
 ऋतु कही है और तत्त्वार्थदर्शी बुद्धिमानोंने तीन ऋतुओंका अयन
 कहा है और दो अयनोंका एक वत्सर कहा है ॥ ११ ॥ चार
 सहस्र वर्षोंका कृतयुग होता है और चार सौ वर्षोंकी उसकी
 सन्ध्या होती है और इतना ही उसका सन्ध्यांश होता है ॥ १२ ॥
 तीन सहस्र वर्षोंके परिमाणका त्रेता है और तीन सौ वर्षोंकी
 उसकी सन्ध्या होती है और इतना ही सन्ध्यांश होता है ॥ १३ ॥
 इसी प्रकार दो सहस्र वर्षोंका द्वापर कहा है और उसकी दो सौ
 वर्षोंकी सन्ध्या होती है और इतना ही सन्ध्यांश होता है ॥ १४ ॥
 और विद्वानोंने कलिको एक सहस्र वर्षका कहा है और सौ वर्ष

मनीषिभिः । तस्यापि शक्तिका सन्ध्या सन्ध्यांशश्चैव तद्विधः १५
 एषा द्वादशसहस्री युगसंख्या प्रकीर्तिता । दिव्येनानेन मानेन
 युगसंख्यां निबोध मे ॥ १६ ॥ कृतं जेता द्वापरं च कलियुगं च
 चतुर्युगम् । युगं तदेकसप्तत्या गणितं नृपसत्तम ॥ १७ ॥ मन्व-
 न्तरमिति प्रोक्तं संख्यानार्थविशारदैः । अयनं चापि तत्प्रोक्तं
 द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे ॥ १८ ॥ मनुः प्रलीयते यत्र समाप्ते चायने
 प्रभोः । तत्रोऽरो मनुः कालमेतवन्तं भवत्युत ॥ १९ ॥ समती-
 तेषु राजेन्द्र प्रोक्तः संवत्सरः संबी । तदेव चायुतं प्रोक्तं मुनिना
 तत्त्वदर्शिना ॥ २० ॥ ब्रह्मणस्तदहः प्रोक्तं कल्पश्चेति स कथ्यते ।
 सहस्रयुगपर्यन्ता या निशा प्रोच्यते युधैः ॥ २१ ॥ निमज्जत्यष्टु
 यत्रोर्वी सशैलवनकानना । तस्मिन् युगसहस्रे तु पूर्णं भरत-

की उसकी संध्या होती है और संध्यांश भी इतना ही होता
 है ॥ १५ ॥ यह बारह सहस्रवर्षकी युगोंकी संख्या कही इस
 दिव्यमानसे तुम युगसंख्याको समझ लो ॥ १६ ॥ सत्ययुग
 जेता द्वापर और कलियुग इन चारोंको चतुर्युगी कहते हैं और
 हे नृपसत्तम ! संख्या करनेमें चतुर पुरुषोंने इकहत्तर चौकड़ी
 युगोंका नाम मन्वन्तर कहा है और इसके भी दक्षिणायन और
 उत्तरायण ये दो अयन कहे हैं, (अर्थात् वह पहिले धृषादिमार्ग
 से देवलोकको प्राप्त हो अपने अधिकारको भोगनेके अनन्तर
 उत्तरायणके मार्गसे ब्रह्मलोकको प्राप्त होजाते हैं) ॥ १७-१८ ॥
 और उत्तर अयनके पूर्ण होने पर मनु (ब्रह्ममें) लीन होजाते
 हैं, फिर इतने ही समय तक दूसरे मनु रहते हैं ॥ १९ ॥ हे राजेन्द्र !
 तत्त्वदर्शी मुनिने अयुत (दश सहस्र) मनुओंका ब्रह्माजीका संवत्सर
 कहा है ॥ २० ॥ ब्रह्माजीका जो दिन कहा है वही कल्प कह-
 लाता है और विद्वान् पुरुषोंने जो सहस्र युगोंकी ब्रह्माजीकी
 रात्रि कही है ॥ २१ ॥ उस समय पृथ्वी पर्वत और वनों सहित

सत्तम ॥ २२ ॥ ब्राह्मे दिवसपर्यन्ते कल्पो निःशेष उच्यते ।
 युगानि सप्ततिस्तानि साग्राणि कथितानि ते ॥ २३ ॥ कृतत्रेयानि
 युक्तानि मनोरन्तरमुच्यते । चतुर्दशैते मनवः कीर्तिताः कीर्ति-
 वर्धनाः ॥ २४ ॥ वेदेषु सपुराणेषु सर्वेषु प्रभविष्णवः । प्रजानां
 पंतयो राजन् धन्यमेवां प्रकीर्तनम् ॥ २५ ॥ मन्वन्तरेषु संहाराः
 संहारान्तेषु संभवाः । न शक्यमन्तरं तेषां वक्तुं वर्षशतैरपि २६
 विसर्गस्य प्रजानां वै संहारस्य च भारत । मन्वन्तरेषु संहाराः
 श्रूयन्ते भरतर्षभ ॥ २७ ॥ स शेषास्तत्र तिष्ठन्ति देवाः ब्रह्मर्षि-
 भिः सह । तपसा ब्रह्मचर्येण श्रुतेन च समन्विताः ॥ २८ ॥ पूर्णे
 युगसहस्रे तु कल्पो निःशेष उच्यते । तत्र सर्वाणि भूतानि
 दग्धान्यादित्यरश्मिभिः ॥ २९ ॥ ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा सहादित्य-

जलमें डूब जाती है हे भरतसत्तम ! उन सहस्र युगोंके पूर्ण होने
 पर ब्राह्म दिवसका आरम्भ होने पर उसकी समाप्ति तकका
 समय कल्प कहलाता है, तुझसे कृतयुग और त्रेयायुग आदि
 से युक्त जो इकहत्तर चौकड़िये कही उतना समय मन्वन्तर
 कहलाता है, तुझसे इन कीर्तिको बढ़ाने वाले चौदह मनुष्योंका
 वर्णन किया ये सब वेद पुराणमें भरे हुए हैं और ये प्रजाके
 स्वामी हैं इनका कीर्तन करना धन देने वाला है ॥ २५ ॥
 मन्वन्तरोंके अनन्तर संहार होता है और संहारके अनन्तर फिर
 सृष्टि चलती है, इनके अन्तको सैंकड़ों वर्षोंमें नहीं बनाया
 जासकता (अर्थात् ब्रह्मज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होसकती) २६
 और हे भरतर्षभ ! (चौदह) मन्वन्तरोंमें भी प्रजाकी सृष्टि और
 संहारका (कभी २) विसर्ग (उपराम) होजाता है, ऐसा सुना है २७
 और तप वेद तथा ब्रह्मचर्यसे युक्त होनेके कारण स्थूल भूतों
 सहित देवता और ब्रह्मर्षि उस समय भी स्थिर रहते हैं ॥ २८ ॥
 सहस्र युगोंके पूर्ण होने पर कल्प पूर्ण होजाता है, उस समय

गणैर्विभो । योगं योगीश्वर देवमजं क्षेत्रज्ञमच्युतम् । प्रविशन्ति
सुरश्रेष्ठं हरिं नारायणं प्रभुम् ॥ ३० ॥ यः सृष्टा सर्वभूतानां
कल्पतिष्ठ पुनः पुनः । अव्यक्तः शाश्वतो देवस्तस्य सर्वमिदं
जगत् ॥ ३१ ॥ तत्र संवर्तते रात्रिः सकलैकार्णवे तदा । नारा-
यणो दधे निद्रां ब्राह्मं वर्षमहमूर्धम् ॥ ३२ ॥ तावन्तमिति काल
स्य रात्रिरित्यभिशाब्दिता । निद्रायोगमनुमाप्तो यस्यां शोते पिता-
महः ॥ ३३ ॥ सा च रात्रिरपक्रांता सहस्रयुगपर्यया । तदा गबुद्धो
भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ३४ ॥ पुनः सिद्धत्तया युक्तः
सर्गाय विदधे मनः । सैन स्मृतिः पुराणे यं तद्वृत्तं तद्विचेष्टि-
तम् ॥ ३५ ॥ देवस्थानानि तान्येव केवलं च विपर्ययः । ततो
दृशानि भूतानि सर्वाण्यादित्परश्मिभिः ॥ ३६ ॥ देवर्षियज्ञ-
सप्त भाणी सूर्यकी क्रिणोसे भस्म होजाते हैं ॥ २६ ॥ और वे
(पञ्चभूत) ब्रह्मा और देवताओंसहित योगीश्वर योगरूप
देव अज क्षेत्रज्ञ अच्युत सुरश्रेष्ठ प्रभु हरि नारायणमें प्रवेश
कर जाते हैं ॥ ३० ॥ जो प्रत्येक कल्पके अन्तमें बारम्बार सब
भूतोंको रचते हैं, जो अमर्ष शाश्वत देव हैं यह सब जगत् उनकी
ही हैं ॥ ३१ ॥ जब सम्पूर्ण विश्व एक जलमय होजाता है तब
रात्रि होती है और ब्रह्माजीसे सौ वर्ष तक नारायण निद्रा लेते
ह ३२ जिस समय तक ब्रह्माजी योगनिद्रासे गहन करते हैं उतना
समय रात्रि रहलाता है, वह रात्रि सहस्र युग गीतने पर पूर्ण
होती है, इसके अनन्तर लोकोंके पितामह भगवान् ब्रह्माजी जागृत
होते हैं और फिर रचनेकी इच्छासे युक्त होकर मनमें सृष्टि करने
का विचार करते हैं, उस समय उनकी चेष्टा और उनकी स्मृति
पूर्वकल्पकी समान ही होती है ॥ ३३-३५ ॥ और देवताओंके
स्थान भी वही होते हैं परन्तु (जीवोंका) विपर्यय (लौकिक फेर)
होता है, हे भरतसत्तम तात ! उस समय सूर्यकी क्रिणोसे भस्म

गन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः । जायन्ते च पुनस्तात युगे भरत-
सत्तम ॥३७॥ यथर्ताष्टतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । दृश्यन्ते
तानि तान्येव तथा ब्राह्मीषु रात्रिषु ॥ ३८ ॥ निष्क्रमित्वा प्रजा-
कारः प्रजापतिरसंशयम् । ये च वै मानुषा देवाः सर्वे चैव मह-
र्षयः ॥३९॥ ते संगताः शुद्धसंघाः शश्वद्धर्मविसर्गतः । न भवन्ति
पुनस्तात युगे भरतसत्तम ॥४०॥ तत्सर्वं क्रमयोगेन कालसंख्या-
विभागवित् । सहस्रयुगसंख्यानं कृत्वा दिवसमीश्वरः ॥ ४१ ॥
रात्रिं युगसहस्रांतां कृत्वा च भगवान्त्रिभुः । संहृत्यथ भूतानि
सृजते च पुनः पुनः ॥ ४२ ॥ व्यक्ताव्यक्तो महादेवो हरिर्नारा-

हुए सब प्राणी और देवता अपि यज्ञ गन्धर्व पिशाच सर्प और
राक्षस भी फिर उस युगमें उत्पन्न होजाते हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥
जैसे (ग्रीष्म शीत आदि) ऋतुके चिन्ह उन ऋतुओंके आने
पर प्रकट होने लगते हैं, इसीप्रकार ब्रह्माजीकी रात्रियोंके बीतने
पर (पूर्वकल्पकी सप्तम) नानारूप वाले प्राणी दीखने लगते
हैं ॥ ३८ ॥ प्रजाके कर्ता प्रजापति (उस समय नारायणमेंसे)
निकलकर (फिर भूतोंको रचने लगते हैं) यहाँ शंका होती है,
कि-(क्या वे सब प्राणियोंकी फिर सृष्टि करने लगते हैं ? इसका
उत्तर यह है; कि-) जो मनुष्य देवता और सब महर्षि शश्वद्धर्म
अर्थात् देहादिमें आत्मबुद्धिरूप स्वाभाविक गुणको त्याग कर
शुद्ध ब्रह्ममें जाकर उसमें मिल जाते हैं, हे भरतसत्तम ! वे फिर
(दूसरे) युगमें उत्पन्न नहीं होते हैं ॥ ३९-४० ॥ कालकी
संख्याका विभाग करनेमें चतुर वह ईश्वर और भगवान् त्रिभु
क्रमानुसार सहस्र युगोंकी संख्या वाले दिनको बनाकर और
सहस्र युग तककी रात्रिको बनाकर प्राणियोंको वाम्बार रचता
है और वारम्बार उनका संहार करता है ॥ ४१-४२ ॥ स्थूल
सूक्ष्मरूप महादेव हरि नारायण प्रभुके अंश वैवस्वत वर्तमान

यणः प्रभुः । तस्य ते कीर्तयिष्यामि मनोवैवस्वतस्य ह ॥ ४३ ॥
 विरुर्गे भरतश्रेष्ठ साम्प्रतस्य महाधुने । वृष्णिवंशप्रसंगेन कथ्य-
 मानं पुरातनम् ॥ ४४ ॥ यत्रोत्पन्नो महात्मा स हरिविष्णुकुले
 प्रभुः । सर्वासुरविनाशाय सर्वलोकहिताय च ॥ ४५ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

वैशम्पायन उवाच । विवस्वान् कश्यपाब्जज्ञे दात्रायणामरि-
 न्दम । तस्य भार्याभवत् संज्ञा त्वाष्ट्री देवी विवस्वतः ॥ १ ॥
 सुरेणुरिति विख्याता त्रिषु लोत्रेषु भागिनी । सा वै भार्या भग-
 वतो मार्तण्डस्य महात्मनः ॥ २ ॥ भर्तृरूपेण नातृष्यद् रूपयौवन-
 शालिनी । संज्ञा नाम सुवपसा दीप्तेनेह समन्विता ॥ ३ ॥ आदि-
 त्यस्य हि तद्रूपं मण्डलस्थस्य तेजसा । गात्रेषु परिदग्धं वै नाति-

मन्वरकी सृष्टिकी, वृष्णिवंशके प्रसङ्गवश कहता हूँ यह पारचीन
 समयसे इसी प्रकार कहा जाता है इसी वृष्णिवंशमें महात्मा
 और प्रभु हरि सब असुरोंका नाश करनेके लिये और सब
 लोकोंका हित करनेके लिये उत्पन्न हुए थे ॥ ४३-४५ ॥
 अष्टम अ-याप समाप्त ॥ ८ ॥

वैशम्पायन मुनिने कहा, कि-हे अरिदमन ! कश्यपजीसे
 दत्तकी पुत्रीमें विवस्वान् उत्पन्न हुए त्वाष्ट्री देवी संज्ञा
 वन विवस्वान्की भार्या बनी । १ । वह भागिनी तीनों लोकोंमें
 सुरेणुके नामसे (भी) प्रसिद्ध थी, वह भगवान् और महात्मा
 मार्तण्डकी स्त्री थी ॥ २ ॥ वह बड़े भारी तपसे युक्त संज्ञा नाम
 वाली स्त्री रूप और यौवन वाली थी, परन्तु वह अपने भर्ताके
 (अति उष्ण) रूपके कारण सन्तुष्ट नहीं रहती थी ॥ ३ ॥
 उस संज्ञाका रूप मण्डलमें स्थित रहने वाले मूर्धके तेजसे शरीर
 जलते रहनेके कारण (बिगड़ गया था, अत एव सूर्य उसमें)

कांतमिहाभवत् ॥ ४ ॥ न खल्वयं मृतोऽण्डस्थ इति स्नेहादभा-
पत । अज्ञानात् कश्यपस्तस्मान्मार्तण्ड इति चोच्यते ॥५॥ तेजस्त्व-
भ्यधिकं तात नित्यमेव विवस्वतः । येनाति, तापयामास श्रील्लो-
कान् कश्यपात्मजः ॥६॥ त्रीण्यपत्यानि वीरव्य संज्ञायां तपतां
वरः । आदित्यो जनयामास कन्यां द्वौ च प्रजापती ॥७॥ मनु-
चैवस्वतः पूर्वं श्राद्धदेवः प्रजापतिः । यमश्च यमुना चैव यमजौ
संबभूवतुः ॥ ८ ॥ सा विवर्णं तु तद्रूपं दृष्ट्वा संज्ञा विवस्वतः ।

अच्छे नहीं लगते थे ४ (अदि तिके) अज्ञानवश होनेपर कश्यप
ने स्नेह पूर्वाक कहा था, कि-यह अरुण्डेमें स्थित गर्भ मरा नहीं
है, इसी लिये सूर्य मार्तण्ड कहलाते हैं (तात्पर्य यह है, कि-जब
सूर्य अदितिके गर्भमें थे उस समय बुध उसके पास भिक्षा माँगने
को आये, परन्तु अदिति गर्भके बोके कारण शीघ्रतासे चल
कर भिक्षा न दे सकी, तब बुधने अदितिको शाप देदिया था,
कि-तेरा गर्भ मृत होजाय, यह मुन कर व्याकुल होतीहुई अदिति
से स्नेहके वशमें हो, कश्यपने अपनी सामर्थ्यसे बुधके शापको
दूर कर कहा था, कि-यह वास्त्वमें मृत नहीं हुआ है, किन्तु
अरुण्डेके भीतर वर्तमान है अदितिके इस मेरा अण्ड मृत होगया
ऐसे विपरीत ज्ञानके कारण सूर्य मार्तण्ड कहलाते हैं) ॥ ५ ॥
(कश्यपके माहान्यके कारण) हे तात ! विवस्वानमें सर्वदा
अधिक तेज रहता है, उसी तेजसे कश्यपपुत्र सूर्य तीनों लोकों
को तपाने रहते हैं ॥६॥ हे कुलवंशी राजन् ! तपानेवालोंमें श्रेष्ठ
आदिन्यने संज्ञामें दो प्रजापति और एक कन्या इसप्रकार तीन
सन्तानोंको उत्पन्न किया था ॥७॥ उनमें एक श्राद्धदेव नामक
विवस्वानपुत्र प्रजापति मनु थे और यम तथा यमुना नामक दो
सन्तान जुड़ुआँ उत्पन्न हुए थे ॥ ८ ॥ तदनन्तर संज्ञाने उन
सूर्यके दुःखदायक रूप वाले देवकर उनके तेजको न सह

असहन्ती च स्वां द्यायां सवर्णा निर्ममे ततः ॥६॥ मयामयी तु
सा संज्ञा तस्याश्छाया समुत्थिता । प्राञ्जलिः प्रणता भूत्वा
द्याया संज्ञां नरेश्वर ॥१०॥ उवाच किं मया कार्यं कथयस्व शुचि-
स्मिते । स्थितास्मि तव निर्देशे शाधि मां वरवर्णिनि ॥ ११ ॥
संज्ञोवाच । अहं यास्यामि भद्रं तं स्वमेव भवनं पितुः । त्वयेह भवने
मह्यं वस्तव्यं निर्विकारया ॥ १२ ॥ इमौ च बालकौ मह्यं कन्या
चेयं सुमध्यमा । संभाव्यास्ते न चाख्येयमिदं भगवते क्वचित् १३
द्यायोवाच । आकचप्रदद्यादेवि आशापान्नाैव कर्हिचित् । आख्या-
स्यामि मत्तं तुभ्यं गच्छ देवि यथासुखम् ॥ १४ ॥ वैशम्पायन
उवाच । समादिश्य सवर्णौ तु तथेत्युक्ता च सा तथा । त्वष्टुः

सरुनेके कारण अपनी द्यायाको अपनी समान नाम और रूप
वाली करके रच दिया ॥ ६ ॥ वह मायामयी संज्ञा संज्ञाकी
द्यायासे उत्पन्न हुई थी, हे नरेश्वर ! वह द्याया संज्ञाको प्रणाम
कर हाथ जोड़कर संज्ञासे कहने लगी, कि-हे शुचिस्मिते !, वताइये
मुझे क्या करना चाहिये हे वरवर्णिनि ! मैं तुम्हारी आज्ञाका
पालन करूंगी तुम मुझे आज्ञा दो ॥ १०-११ ॥ संज्ञाने
कहा, कि-तेरा कल्याण हो ! मैं अपने पिताके घरको जा रही हूँ
तू मेरे इस घरमें निर्विकार होकर रहना, ये मेरे दोनों बालक
पुत्र हैं और यह एक सुमध्यमा कन्या है, इनका तू ध्यान रखना
और इस रहस्यको तू भगवान् सूर्यसे कभी न कहना १२-१३
द्यायाने कहा, कि-हे देवि ! जब तक मेरे बाल न घसीटे जायेंगे
और जब तक मुझे शाप न दिया जायगा तब तक मैं यह बात
किसी प्रकार भी नहीं कहूँगा, हे देवि ! आप इच्छानुसार चली
जाइये १४ अपने समान नाम-रूपवाली द्यायाको आज्ञा देकर
और उससे तथास्तु कहला कर वह तपस्विनी लज्जितसी होकर
अपने पिता त्वष्टाके पास चली गई तहाँ उसके पिताने उसका

समीपमगमद् व्रीडितेव तपस्विनी ॥ १५ ॥ पितुः समीपगा सा
 तु पित्रा निर्भर्त्सिता तदा । भर्तुः समीपं गच्छेति निपुक्ता च
 पुनः पुनः ॥ १६ ॥ अगच्छद्गृह्णा भूत्वाऽऽद्याय रूपमनिदिता ।
 क्रूरुनथोत्तरान् गत्वा तृणान्येव चचार ह ॥ १७ ॥ द्वितीयायां तु
 संज्ञायां संज्ञेयमिति चिंतयन् । आदित्यो जनयामास पुत्रमात्म-
 समं तदा ॥ १८ ॥ पूर्वजस्य मनोस्तात सदृशोऽयमिति प्रभुः ।
 सवर्णत्वान्मनोर्भूयः सावर्ण इति चोक्तवान् ॥ १९ ॥ मनुरेवा-
 भवन्नाम्ना सावर्ण इति चोच्यते । द्वितीयो यः सुतस्तस्याः स
 विज्ञेयः शनैश्वरः ॥ २० ॥ संज्ञा तु पार्थिवी तान स्वस्य पुत्रस्य
 वै तदा । चकारोऽधिकं स्नेहं न तथा पूर्वजेषु वै ॥ २१ ॥ मनु-
 स्तस्यात्तमत्तु यमस्तस्या न चक्षमे । तां सरोपाच्च वात्स्याच्च
 भाविनोऽर्थस्य वै बलात् । यदा संतर्जयामास संज्ञां वैवस्वतो
 यमः ॥ २२ ॥ तं शशाप ततः क्रोधात् सावर्णजननी नृप । चरणः

तिरस्कार करके उससे वार २ कहा, कि—तू अपने पतिके पास ही
 जा १५-१६ तब वह अनिन्दिता अपने रूपको बदल घोड़ीका
 रूप धारण करके उत्तर कुहओंमें जाकर तिनकोंको चरनेलगी १७
 उस दूसरी संज्ञाको भी मूर्खने संज्ञा ही समझकर उसमें अपनी
 समान पुत्रको उत्पन्न किया ॥ १८ ॥ यह अपने बड़े भाई भ्राजदेव
 मनुके समान वर्णवाला था अत एव सावर्ण कहलाया था १९ और
 वह मनु हुए और उनका नाम सावर्ण मनु कहलाता है और
 उससे जो दूसरा पुत्र हुआ उसको शनैश्वर जानो २० वह (ब्राह्मण
 के पृथ्वीमें पड़नेके कारण पृथिवीसे उत्पन्न हुई) पार्थिवी संज्ञा
 अपने पुत्रसे अधिक स्नेह करती थी और गैसा स्नेह दूसरी
 सन्तानोंसे नहीं करती थी २१ मनुने तो इस बातको सह लिया,
 परन्तु यमने इस बातको नहीं सहा, भावीके वशमें हो बालह्व-
 भावके कारण रोपमें भरकर जब विवम्बान् पुत्र यम संज्ञाको डाँटने

पततामेप तथेति भृशदुःखिता ॥ २३ ॥ यमस्तु तत्पितुः सर्व
 प्राञ्जलिः मत्पवेदयत् । भृशं शापभयोद्विग्नः संज्ञावाक्यप्रतो-
 दितः ॥ २४ ॥ शापोऽयं त्रिनिवर्तेन प्रोवाच पितरं तदा । मात्रा
 रनेहेन सर्वेषु वर्तिनर्ध्वं सुतेषु वै ॥ २५ ॥ सेयमस्मानपाहाय यवी-
 यांसं बुभूषति । तस्यां मयोद्यतः पादो न तु देहे निपातितः । २६ ॥
 बाल्याद्वा यदि वा मोहात्तद्भवान् क्षंतुमर्हसि । यस्मात्ते पूजनी-
 योऽहं लंघितास्मि त्वया सुत ॥ २७ ॥ तस्मात्तवैव चरणाः पति-
 प्यन्ति न संशयः । अपत्यं दुरपत्यं स्यान्नात्वा कुजननी भवेत् २८
 शप्तोऽहमस्मिन्बलोकेश जनन्या तपतां वर । तव प्रसादाच्चरणो
 न पतेन्मम गोपने ॥ २९ ॥ त्रिस्वानुनाच । असंशयं पुत्र मह-
 लगे २२ हे राजन् ! तव सावर्णिकी माताने अति दुःखित हो कोपमें
 भरकर उनको शाप दिया, कि-तुम्हारा चरण गिर जाय ॥ २३ ॥
 संज्ञाके वाक्यमें चोट पाकर और शापके भयसे उद्विग्न होकर
 यमने दोनों हाथ जोड़कर सब बात अपने पितासे कही ॥ २४ ॥
 और पितासे कहा, कि-मेरे इस शापको दूर कर दीजिये, माता
 को तो सब पुत्रोंसे स्नेहपूर्वक प्रकृसा वर्ताव करना चाहिये २५
 सो यह हम सबोंको छोड़कर सबसे छोटेसे स्नेहका वर्ताव करती
 है, उसके ऊपर मैंने पैर उठाया तो था परन्तु उसके शरीर पर
 गारा नहीं था, मैंने यह काम बालरूपनसे किया हो या मोहवश
 किया हो, परन्तु आपको इसकी क्षमा करना चाहिये (संज्ञाने
 कहा था, कि-) हे पुत्र ! मैं तेरी पूजनीय हूँ, तब भी तूने मेरा
 उल्लंघन किया है, इसलिये तेरा यह पैर गिर पड़ेगा, इसमें
 कुछ सन्देह नहीं है परन्तु सन्तान तो कुसन्तान होसकती है,
 परन्तु कहीं माता कुमाता होती है ॥ २६-२८ ॥ हे तपानेवालोंमें
 श्रेष्ठ ! माताने मुझे शाप देदिया है, परन्तु हे किरणोंके स्वामिन् !
 आपकी प्रसन्नतासे मेरा चरण इस लोभमें न गिरे ॥ २९ ॥

द्भविष्यत्यत्र कारणम् । येन त्वामाविशत् क्रोधो धर्मज्ञं सत्यवा-
 दिनम् ॥३०॥ न शक्यमन्यथा कर्तुं मया मातुर्वचस्तव । कृमयो
 मांसमादाय यास्यन्ति धरणीतलम् ॥ ३१ ॥ तव पादान्महा-
 प्राज्ञ ततस्त्वं प्राप्स्यसे सुखम् । कृतमेवं वचस्तथ्यं मातुस्तव
 भविष्यति ॥३२॥ शापस्यापरिहारेण त्वं च त्राता भविष्यसि ।
 आदित्योऽथाब्रवीत् संज्ञां किमर्थं तनयेषु वै ॥ ३३ ॥ तुभ्येष्व-
 भ्यधिकः स्नेहः कियतेऽति पुनः पुनः । सा तत्परिहसन्ती तु नाच-
 चक्षे विवस्वते ॥३४॥ आत्मानं सुसमाधाय योगाच्चध्यमपरयत् ।
 तां शमुक्तामो भगवान्नाशाय कुरुनन्दनः ॥३५॥ मूर्धजेषु च जग्राह
 समयेऽतिगतेषु च । सा तत्सर्वं यथावृत्तमाचचक्षे विवस्वते । ३६।
 विवस्वानथ तच्छ्रुत्वा क्रुद्धस्त्वष्टारमभ्यगात् । त्वष्टा तु तं यथा-

सूर्यने कहा, कि-हं पुत्र ! तुझ धर्मज्ञ और सत्यवादीको जो
 क्रोध चढ़ा है, इसमें भी कोई बड़ा भारी कारण होगा ॥३०॥
 परन्तु मैं तेरी माताके वचनको अन्यथा नहीं कर सकता हे महा-
 प्राज्ञ ! कृमि तेरे चरणमेंसे मांस लेकर पृथ्वीतलको चले जावेंगे,
 तव तुझ सुख मिलेगा, इसकारण शापका अपरिहार करनेसे
 तेरी माताका कहा हुआ वचन सत्य होगा इसके अनन्तर आदित्य
 ने संज्ञासे कहा, कि-तू एकसे पुत्रोंमें कमती बढ़ती स्नेह क्यों
 करती है सूर्यने यह बात कई बार कही, परन्तु वह हँसती ही
 रही और उसने सूर्यसे कुछभी बात नहीं कही ॥ ३१-३४ ॥
 तव सूर्यने अपनी आत्माको स्थिर करके योगके द्वारा सब सच्ची
 बात जान ली, फिर हे कुरुनन्दन ! उन्होंने शाप देनेके लिये उस
 को भौंटा पकड़ लिया, तव अपनी (शाप और बाल पकड़ने
 तककी) शपथके उतर जानेपर उसने सूर्यानारायणसे सत्य बात
 कह दी ३५-३६ सूर्यानारायण इस बातको सुनते ही क्रोधमें भर
 कर त्वष्टाके पासको चल दिये, तव क्रोधमें भर कर अपनेको

न्यायमर्चयित्वा विभावसुम् । निर्दग्धुकामं-रोपेण सात्वयामास वै
 तदा ॥३७॥ त्वष्टोवाच । त्वातितेजसाविष्टमिदं रूपं न शोभते ।
 असहन्ती च तत् संज्ञां वने चरति शाड्वले ॥ ३८ ॥ द्रष्टा, हि तां
 भवानद्य स्वां भार्यां शुद्धचारिणीम् । नित्यं तपस्यभिरतां वडवा-
 रूपधारिणीम् ३६ पर्णादारां कृशां दीनां जटिलां ब्रह्मचारिणीम् ।
 हस्तिहस्तपरिक्लिष्टां व्याकुलां पद्मिनीमिव । श्लाघ्यां योगयत्नो-
 पेतां योगमास्थाय गोपते ॥४०॥ अनुकूलं तु ते देव यदि स्यान्-
 गम तन्मतम् । रूपं निवर्तयाम्यद्य तव क्रांतमरिन्दम ॥ ४१ ॥
 रूपं विवस्वतश्चासीत्तिर्यग्भूर्ध्वसमं तु वै । तेनासौ संभृतो देवो
 रूपेण तु विभावसुः ॥ ४२ ॥ तस्मान्त्वष्टुः स वै वाचं बहु मेने
 प्रजापतिः । समनुज्ञातवांश्चैव त्वष्टारं रूपसिद्धये ॥ ४३ ॥

शाप देना चाहने वाले सूर्यनारायणकी त्वष्टाने न्यायानुसार
 पूजाकी ३७ फिर त्वष्टाने कहा, कि-तुम्हारा यह अतितेजस्वी
 रूप शोभा नहीं पाता है, इसको न सह सकनेके कारण संज्ञा
 हरीवास वाले वनमें (हरी घास) चर रही है ॥ ३८ ॥
 हे गोपते ! आज आप हाथीकी सूँडसे ग्विचनेके कारण पद्मिनी
 की समाना व्याकुल हुई शुद्ध आचरण करने वाली योगके
 चलवाली और योगसे घोड़ीका रूप धारण करनेका सदा तप
 करती हुई पर्त्तोंका आहार करती हुई दुबली दीन और जटा-
 धारिणी ब्रह्मचारिणी अपनी श्लाघनीय भार्याको देखेंगे ३६।४०।
 हे देव ! यदि मेरी बात आपको उचित प्रतीत हो तो मैं आपके
 रूपको मनोहर बनाऊँ ॥ ४१ ॥ पहिले सूर्यका रूप तिरछी और
 ऊँची सब ओरसे एकसा था, उस रूपसे युक्त होनेके कारण
 वह देव विभावसु कहलाये थे ॥ ४२ ॥ इसलिये उन प्रजापति
 सूर्य नारायणने त्वष्टाकी बातको बहुत अच्छी समझा और
 रूपको बनानेके लिये त्वष्टाको अनुमति देदी ॥४३॥ हे भारत !

ततोभ्युपगमन्वष्टा मार्तण्डस्य विवस्तः । भ्रमिमारोप्यतत्तेजः
 शातयागास । भारत ॥ ४४ ॥ ततो निर्भासितं रूपं तेजसा
 संहृतेन वै । कान्तात् कान्ततरं द्रष्टुमशकं शुशुभे तदा ॥ ४५ ॥
 मुखे निर्वर्तितं रूपं तस्य देवस्य गोपतेः । ततः प्रभृति देवस्य
 मुखमासीत्तु लोहितम् । मुखरागं तु यत्पूर्वं मार्तण्डस्य मुख-
 च्युतम् ४६ आदित्या द्वादशैवेह संभूता मुखसम्भवाः । धाताऽर्षमा
 च मित्रश्च वरुणोऽशो भगस्तथा ॥ ४७ ॥ इंद्रो विवस्वान् पूषा च
 पर्जन्यो दशमस्तथा । ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघ-
 न्यजः ॥ ४८ ॥ हर्षं लेभे ततो देवो दृष्ट्वाऽऽदित्यान् स्वदेहजान् ।
 गंधैः पुष्पैरलंकारैर्भास्वता मुकुटेन च ॥ ४९ ॥ एवं संपूजया-
 मास त्वष्टा वाक्यमुवाच ह । गच्छ देव निर्जां भार्यां कुरुंश्च-
 तत्र त्वष्टाने मार्तण्ड सूर्यके समीप आकर उनके सान पर चढ़ा
 कर उनके तेजको झीलना आरम्भ कर दिया ॥ ४४ ॥ उस
 समय तेजके थोड़े होजानेके कारण सूर्यका रूप देखनेके लिये
 भक्त होगया, उस समय वह परमरमणीय रूप शोभा पाने
 लगा ॥ ४५ ॥ जब क्रिणोके स्वामी सूर्यके मुखका रूप बदल-
 गया उस समयसे उन देवताका मुख रक्तवर्ण होगया और सूर्य
 के मुखसे जो सूर्यके मुखका राग छूटा था ॥४६॥ उससे बारह
 आदित्य उत्पन्न हुए, उन मुखसे उत्पन्न हुए (आदित्योंके नाम
 इस प्रकार हैं) धाता अर्षमा मित्र वरुण अंश भग इंद्र विवस्वान्
 पूषा और दशवाँ पर्जन्य तथा त्वष्टा और (बारहवें मुख झीलने-
 रूपी) जघन्य फर्षसे उत्पन्न अजघन्य विष्णु (ये बारह
 आदित्य हुए) ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ गंध पुष्प अलंकार और
 मकाशवान् मुकुटसे शोभावमान अपने शरीरसे उत्पन्न हुए
 आदित्योंको देख कर सूर्यनारायण हर्षित हुए ॥४९॥ इस प्रकार
 पूजा करके त्वष्टाने कहा कि-हे देव ! अब आप अपनी भार्या

रति सीत्तरान् ॥ ५० ॥ चडवाचरूपमास्थाय वने चरति शाद्वले ।
 स तथा रूपमास्थाय स्वधार्या रूपलीलया ॥ ५१ ॥ ददर्श योग-
 मास्थाय स्वां भार्यां चडवां ततः । अधृष्यां सर्वभूतानां तेजसा
 नियमेन च ॥ ५२ ॥ चडवाचपुसा राजंश्चरंतीमकुतोभयाम् ।
 सोऽश्वरूपेण भयवांस्तां मुग्धे समभाषयत् ॥ ५३ ॥ मैथुनाय
 विचेष्टन्तीं परंपुंसोपशंकाया । सा तन्निरचमन्लुकां नासिक्वायां
 विवस्वतः ॥ ५४ ॥ देवी तस्यामजायेतामश्विनौ भिषजां वरौ ।
 नासत्यथैव दत्तश्च स्मृतौ ह्यश्विनोऽविति ॥ ५५ ॥ मार्तण्ड-
 स्थात्मजावेतावष्टमस्य मजापतेः । तं तु रूपेण कान्तेन दर्शया-
 माम् भास्करः ॥ ५६ ॥ सा च दृष्ट्वा भर्तारं तुतोप जनमेजय ।
 के पास जाइये, वह उत्तर कुह देशमें भ्रमण कर रही है ॥ ५० ॥
 वह हरी घाससे भरे हुए वनमें घोड़ीका रूप धारण करके विचर
 रही है, तब सूर्यनारायणने अपनी भार्याके रूपके अनुसार घोड़ेकी
 समान विचरण करनेके लिये घोड़ेकासा रूप धारण कर लिया ५१
 उससमय सूर्यनारायणने ध्यान धर कर देखा तो उन्होंने तेज
 और नियमके कारण सब भूतोंसे अधृष्य अपनी भार्याको घोड़ी
 का रूप धारण करके अकुतोभय हो विचरती हुई देखा, तब सूर्य-
 नारायण अश्वका रूप धारण करके उसके पास पहुँचे, तब वह
 परपुरुषकी शंकासे मैथुनके प्रतिकूल चेष्टा करने लगी तब
 सूर्यनारायण उसके मुग्धके समीप हुए, तब उसने सूर्यके वीर्य
 को अपनी नाक परसे गिरा दिया ॥ ५२-५४ ॥ उससे वैश्योंमें
 श्रेष्ठ अश्विनीकुमार नामक देवता उत्पन्न हुए वे दोनों अश्विनी-
 कुमार नासत्य और दत्त नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ५५ ॥ ये दोनों
 अष्टम मजापति मार्तण्डके पुत्र हैं, इसके अनन्तर सूर्यने उसको
 अपने मनोहररूपमें दर्शन दिया ॥ ५६ ॥ हे जनमेजय ! तब वह
 स्वामीको देख कर सन्तुष्ट होगई और यमराज तो उस (जापके)

यमस्तु कर्मणा तेन भृशं पीडितमानसः ॥ ५७ ॥ धर्मेण रंजया-
 मास धर्मराज इमाः प्रजाः । लेभे स कर्मणा तेन परमेण महा-
 द्युतिः ॥ ५८ ॥ पितृणामाधिपत्यं च लोकरपालत्वमेव च । मनुः
 प्रजापतिस्त्वासीत्सावर्णः स तपोधनः ॥ ५९ ॥ भाव्यः सोऽना-
 गते काले मनुः सावर्णिके तरे । मेरुपृष्ठे तपो घोरं ह्यद्यापि
 चरति प्रभुः ॥ ६० ॥ भ्राता शनैश्चरश्चास्य ग्रहत्वमुपलब्धवान् ।
 नासत्यां र्यां समाख्यातां स्वर्गैर्द्यां तौ वभूवतुः ॥ ६१ ॥ सेव-
 तोऽपि तथा राजन्नश्वानां शान्तिदोऽभवत् । त्वष्टा तु तेजसा तेन
 विष्णोश्चक्रमकल्पयत् ॥ ६२ ॥ तदप्रतिहतं युद्धे दानवान्त-
 चिर्हीर्यया । यवीर्यसी तयोर्या तु यमी कन्या यशस्विनी ॥ ६३ ॥
 अभवत्सा सरिच्छ्रेष्ठा यमुना लोकराशिनी । मनुरित्युच्यते
 लोके सावर्ण इति चोच्यते ॥ ६४ ॥ द्वितीयो यः सुतस्तस्य मनो-

कर्मसे अपने मनमें बड़े पीड़ित रहते थे ॥ ५७ ॥ अत एव वह
 धर्मराज धर्मपूर्वक प्रजाको प्रसन्न करने लगे, इस परम कर्मके
 कारण उन महाकान्तिवान् धर्मराजको पितरोंका आधिपत्य और
 लोकपालान मिला, और तपोधन सावर्ण प्रजापति मनु हुए ॥ ५९
 वे सावर्ण नाम वाले भविष्यके मन्वन्तरके समयमें मनु होंगे वह
 मनु आज कल भी मेरुपृष्ठपर तपस्या कर रहे हैं ॥ ६० ॥ और
 इनके भाई शनैश्चर ग्रह हुए और जो नासत्य कहे वे स्वर्गके वैद्य
 हुए ॥ ६१ ॥ वह सेवन करने पर घोड़ोंको शांति देते हैं । उस
 तेजसे त्वष्टाने विष्णुके चक्रकी कल्पनाकी ॥ ६२ ॥ उस चक्रको
 युद्धमें दानवोंका अन्त करनेकी इच्छासे अप्रतिहत बनाया था,
 उन दोनोंकी जो छोटी कन्या यमी नाम वाली थी वह नदियोंमें
 श्रेष्ठ लोकोको पवित्र करने वाली जमनाजी हुई, मनु संसारमें
 मनु भी कहान्त है और सावर्णभी कहलाने है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥
 उनके दूसरे पुत्र और मनुके भ्राताका नाम शनैश्चर था और

भ्रता शनैश्चरः । ग्रहत्वं स च लोभे वै सर्वलोकाभिभूजितम् ५५
य इदं जन्म देवानां मृणुयाद्वापि धारयेत् । आपद्भयः स विमु
च्येत माप्नुयाच्च महद्यशः ॥ ६६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि
वैवस्वतोत्पत्तौ नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

वैशम्पायन उवाचामनोवैवस्वतस्स्यासन्पुत्रा वै नव तत्समाः ।

इक्ष्वाकुश्चैव नाभागो धृष्णुः शर्यातिरेवलो च ॥ १ ॥ नरिष्यंश्च
तथा प्रांशुर्नाभगारिष्टसप्तमाः । करूपश्च पृषध्रश्च नवैते भर
तर्षभ ॥ २ ॥ अकरोत्पुत्रकामस्तु मनु रिति मजापतिः । मित्रावरुण
योस्तात पूर्वमेव विशाम्पते ॥ ३ ॥ अजुत्पन्नेषु नवसु पुत्रेष्वेतेषु
भारत । तस्यां तु वर्तमानायामिष्ट्यां भरतसत्तम ॥ ४ ॥ मित्रा
वरुणयोरंशे मुनिराहुतिमाजुहोत् । आहुत्यां ह्यमोनायां देवगंध
र्वमानुषाः ॥ ५ ॥ तुष्टिं तु परमां जग्मुर्नयश्च तपोधनाः । अहो

शनैश्चरने सब लोकोंसे पूजित ग्रह संज्ञा पाई थी ६५ जो मनुष्य
देवताओंके जन्मको सुनता है अथवा इसको धारण करता है, वह
आपत्तियोंसे छूट जाता है और बड़ा भारी यश पाता है ॥६६॥
नवम अध्याय समाप्त ॥६॥

वैशम्पायनने कहा कि—हे भरतर्षभ ! वैवस्वत मनुके उनकी
ही समान इक्ष्वाकु नाभाग धृष्णु शर्याति नरिष्यन्त प्रांशु सातवें
नाभगारिष्ट और करूप तथा पृषध्र नामक नौ पुत्र थे ॥१॥२॥
हे विशाम्पते ! हे भरतर्षभ ! इन नौ पुत्रोंके उत्पन्न होनेसे पहिले
मजापति मनुने पुत्रकी चाहनासे मित्रावरुणका यज्ञ किया था,
हे भरतसत्तम ! जब वह इष्टि हो रही थी उस समय मुनिने मित्रा
वरुणके लिये आहुति दी उस समय आहुतिके होमे जाने पर
देवता गन्धर्व मनुष्य और तपोधन मुनि परम सन्तुष्ट हुए (और
कहने लगे, कि—) अहो ! इसके तपका वीर्य कैसा है और इसका

ऽस्य तपसो वीर्यमहोऽस्य श्रुतमद्भुतम् ॥ ६ ॥ तत्र दिव्यावरधरा
 दिव्याभरणभूषिता । दिव्य संहनना चैव इला जज्ञे इति
 श्रुतिः ॥ ७ ॥ तामिलेत्येव होवाच मनुर्दण्डधरस्तदा अनुग-
 ञ्छस्व मां भद्रे तमिला मत्युवाच ह । धर्मयुक्तमिदं वाक्यं पुत्र-
 कामं प्रजापतिम् ॥ ८ ॥ इलोवाच । मित्रावरुणयोरंशो जाताऽस्मि
 यदताम्बर । तयोः सकाशं यास्यामि न मां धर्मो हतोऽवधीत् ६
 सैवमुक्ता मनुं देवं मित्रावरुणयोरिला । गत्वातिकं वरारोहा प्राञ्ज-
 लिर्वाक्यमब्रवीत् १० अंशोऽस्मि युवयोर्जाता देवौ किं करवाणि वाम् ।
 मनुना चाहमुक्ता वं अनुगच्छस्व मामिति ११ तां तथा वादिनीं साध्वीं
 मिलोर्धर्मपरायणाम् । मित्रश्च वरुणश्चोभावृचतुर्यन्निबोधतत् १२
 अनेन तव धर्मेण मश्रयेण दमेन च । सत्येन चैव सुश्रोणि प्रीतौ

शास्त्रज्ञान कैसा अद्भुत है ॥ ३-६ ॥ उस यज्ञमें दिव्य वस्त्रों
 को धारण करने वाली और दिव्य आभूषणोंसे विभूषित और
 दिव्य कवचको पहिरं हुए इला नामकी कन्या मकट हुई थी, यह
 वान मसिद्ध है ॥ ७ ॥ दण्डधारी राजा मनुने उस इलासे कहा
 और कहा, कि-हे भद्रे ! तू मेरे पीछे २ आ, तब इलाने पुत्रकी
 कामना वाले प्रजापतिसे यह धर्ममय वाक्य कहा ॥ ८ ॥ इलाने
 कहा कि-हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! मैं मित्रावरुणके अंशसे उत्पन्न
 हुई हूँ अत एव मैं उनके ही पास जाती हूँ, जिससे धर्मको छोड़
 देनेसे धर्म मेरा चयन करे ॥६॥ वरारोहा इला इस प्रकार मनु-
 देवतासे कहकर मित्रावरुणके पास जा दोनों हाथ जोड़ कर
 उनसे कहने लगी, कि-॥ १० ॥ हे देवताओं ! मैं तुम्हारे अंशसे
 उत्पन्न हुई हूँ, अतः वनाओ ! मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूँ ?
 मनु मुझसे कह रहे हैं कि तू हमारे पीछे आ ॥ ११ ॥ धर्म-
 परायण साध्वी इलाके इस प्रकार कहने पर मित्रावरुणने उससे
 जो कुछ कहा था उसको तुम सुनो ॥ १२ ॥ ' हे वरवर्णिनी !

स्वो वरवर्णिनि ॥ १३ ॥ आबयोस्त्वं महाभागे ख्यातिं कन्येति
यास्यसि । मनोर्वंशधरः पुत्रस्त्वमेव च भविष्यसि ॥ १४ ॥ सुद्युम्न
इति विरुपातस्त्रिषु लोकेषु शोभने । जगत्प्रियो धर्मशीलो मनो-
र्वंशविवर्धनः ॥ १५ ॥ निवृत्ता सा तु तच्छ्रुत्वा गच्छन्ती पितुरं-
तिकम् । बुधेनान्तरमासाद्य मैथुनायोपमन्त्रिता ॥ १६ ॥ सोम-
पुत्रद्रुधाद्राजंस्तस्यां जज्ञे पुरुरवाः । जनयित्वा ततः सा तमिला
सुद्युम्नतां गता ॥ १७ ॥ सुद्युम्नस्य तु दायादाश्चयः पर-
मधार्मिकाः उत्कलश्च गयश्चैव विनताश्च भारत ॥ १८ ॥
उत्कलस्योत्कला राजन् विनताश्चयश्च पश्चिमा । दिक्पूर्वा भरत-
श्रेष्ठ गयस्य तु गयापुरी ॥ १९ ॥ प्रविष्टे तु मनौ तात दिवाकर-
मरिन्दम । दशधा तु दधत् क्षत्रमकरोत् पृथिवीमिमाम् ॥ २० ॥

हम तेरी इस नम्रता धर्म दम और सत्यसे मसन्न हुए हैं १३
हे महाभागे ! तू हमारी कन्या कहलावेगी और तू ही मनुका
वंशधर पुत्र होगी ॥ १४ ॥ हे शोभने ! उस समय तू तीनों
लोकोंमें सुद्युम्न नामसे गसिद्ध होगी और तू जगत्प्रिय और
मनुके वंशको बढ़ाने वाली होगी ॥ १५ ॥ इस बातको सुन कर
वह अपने पिता मनुके पास जा रही थी, कि-बुधने उसको मैथुन
करनेके लिये बुला लिया ॥ १६ ॥ सोमपुत्र बुधसे उस इलामें
पुरुरवा उत्पन्न हुआ और उस पुत्रको उत्पन्न करनेके बाद
इला सुद्युम्न होगई ॥ १७ ॥ और हे भारत ! सुद्युम्नके उत्कल
गय और विनताश्च नामक परमधार्मिक तीन पुत्र उत्पन्न हुए १८
हे राजन् ! उत्कलकी उत्कला नाम वाली नगरी है और विनताश्च
की पश्चिमा और हे भरतश्रेष्ठ ! गयकी पूर्वदिशामें गया नामकी
पुरी है ॥ १९ ॥ हे अरिदमन ! मनुके (पुत्रोंको उत्पन्न कर
अपने अधिकारको त्याग कर) सूर्यमें मवेश कर जाने पर इच्चाकु
आदि मनुके दश पुत्रोंने पृथ्वीको दश भागोंमें विभक्त कर लिया

यूपांकिता वसुमती यस्येयं सवनाकरा । इश्वाकुर्ज्येष्ठदायादो
 मध्यदेशमवाप्तवान् ॥ २१ ॥ कन्याभावाच्च सुद्युम्नो नैनं गुण-
 मवाप्तवान् । वसिष्ठवननाच्च-सीत् प्रतिष्ठाने महात्मनः ॥ २२ ॥
 प्रतिष्ठा धर्मराजस्य सुद्युम्नस्य क्रुद्धह । तत्पुत्रवसे पादाद्राज्यं
 प्राप्य महायशाः ॥ २३ ॥ सुद्युम्नः कारयामास प्रतिष्ठाने नृप-
 क्रियाम् । उत्कलस्य त्रयः पुत्रास्त्रिषु लोकेषु विश्रुताः । घृष्टकरचां-
 वरीपश्च दंडश्चेति सुनास्त्रयः २४ यश्चकार महात्मा नै दंडका-
 रणमुत्तमम् । वनं तल्लोकविख्यातं तापसानामनुत्तमम् ॥ २५ ॥
 तत्र पविष्टमात्रस्तु नरः पापात् ममुन्यते । सुद्युम्नश्च दिवं यात
 ऐलमुत्पाद्य भारत ॥ २६ ॥ मानरेयो महाराज स्त्रीपुंसोर्लक्षणै-
 र्युतः । धृत्वान य इत्येव सुद्युम्नश्चेति विश्रुतः ॥ २७ ॥ नरि-

यह वन और खानों सहित यूपांकित पृथिवी जिसकी है उस मनु
 के पुत्र इश्वाकुने मध्यदेशको प्राप्त किया २१ सुद्युम्न कन्याभावाके
 कारण इस पदको नहीं, इसका परन्तु वसिष्ठके वनसे महात्मा
 सुद्युम्नको प्रयागका एकदेश मिल गया था ॥ २१ ॥ २२ ॥
 हे क्रुद्धह ! धर्मराज क्रुद्धहका जो राज्य था वह उस महायशास्वी
 ने राज्य पानेके बाद अपना राज्य पुत्रवसेको दे दिया ॥ २३ ॥
 सुद्युम्नने राज्यको पानेके बाद प्रयागमें (कुछ दिन) राज्य
 किया था, उत्कलके तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध घृष्टक अम्बरीष और
 दण्ड नाम वाले तीन पुत्र हुए थे ॥ २४ ॥ महात्मा दण्डने दण्ड-
 कारण नाम वाले वनको बनाया था, वह लोकप्रसिद्ध वन
 तपस्त्रियोंके लिये परमोत्तम है ॥ २५ ॥ मनुष्य उसमें प्रवेश
 करते ही सब पापोंसे छूट जाता है, हे भारत ! हे महाराज !
 स्त्री और पुत्रोंके लक्षणोंसे युक्त मनुका पुत्र सुद्युम्न ऐलको
 उत्पन्न करके स्वर्गको चला गया, इसने अपनी उला दशामें गर्भ
 को धारण किया था फिर यह सुद्युम्न नामसे प्रसिद्ध होगया

प्यतः शकाः पुत्रा नाभागस्य तु भारत । अम्बरीषोऽभवत् पुत्रः
 पार्थिवर्षभसत्तमः ॥२८॥ धृष्णोस्तु धार्ष्टकं क्षत्रं रणधृष्टं बभूव
 ह । शर्यातिर्मिश्रुनं, चासीदानर्तो नाग विश्रुतः ॥२९॥ पुत्रः कन्या
 सुकन्या, च या पत्नी च्यवनस्य ह । आनर्तस्य तु दायादो रेवो
 नाम महाद्युतिः ॥३०॥ आनर्तविषयश्चात् पुरी चास्य कुशस्थली ।
 रेवस्य रैवतः पुत्रः ककुब्धी नाम धार्ष्टिकः ॥ ३१ ॥ ज्येष्ठः पुत्र-
 शतस्यासीद्राज्यं प्राप्य कुशस्थलीमास कन्यासहितः श्रुत्वा गांर्व
 ब्रह्मर्णोऽतिके ॥ ३२ ॥ सुहूर्तभूतं देवस्य गतं बहुयुगं मभो ।
 आजगाम युवैवाथ स्वां पुरीं यादवैष्टताम् ॥ ३३ ॥ कृतां द्वार-
 वर्तीं नाम्नां बहुद्वारां मनोरमाम् । भोजवृष्ण्यन्धकैर्घृष्णां वासुदेव-

यम् ॥ २६ ॥ २७ ॥ हे भारत ! नरिष्यत्के पुत्र शक हृष्ट और
 नाभागका पुत्र राजराजेश्वर अम्बरीष हुआ ॥ २८ ॥ धृष्णके
 धार्ष्टक नाम वाले क्षत्रिय हृष्ट, वे रणमें बड़े डीठ थे, शर्यातिके
 दो सन्तानें उत्पन्न हुई थीं, उसमें एक पुत्र था उसका नाम
 आनर्त प्रसिद्ध था ॥ २९ ॥ और उनमें एक कन्या थी, उसका
 नाम सुकन्या था और वह च्यवन ऋषिकी पत्नी थी, आनर्तके
 रेव नाम वाला महाद्युति पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३० ॥ उसका
 राज्य आनर्त (द्वारका) देशमें था और उसकी पुरीका नाम
 कुशस्थली (द्वारका) था, रेवके रैवत पुत्रका नाम परमधार्ष्टिक
 ककुब्धी था, वह उसके सौ पुत्रोंमें ज्येष्ठपुत्र था, राज्य पानेके
 अनन्तर वह अपनी कन्याके साथ (ब्रह्मलोकमें) गया तहाँ वह
 ब्रह्माजीके समीप गन्धर्वोंका गाना सुनने लगा, हे मभो ! गाना
 सुनते २ बहुतसे युग उसको एक सुहूर्तकी समान, व्यतीत होगए,
 इसके उपरान्त वह तरुण ही बनाहुआ यादवोंसे घिरी हुई अपनी
 पुरीमें आया, उस समय उस पुरीमें बहुतसे दरवाजे बनगए थे
 और वासुदेव आदि भोज वृष्णि और अंधकवंशी उस रमणीय

पुरोगमैः ॥३४॥ ततः स रैवतो ज्ञ त्वा यथातत्त्वमरिन्दम । कन्यां
तां बलदेवाय सुव्रतां नाम रेवतीम् ३५ दत्त्वा जगाम शिखरं मेरो-
स्तपसि संस्थितः रेमे रामोऽपि धर्मात्मा रेवत्या सहितः सुखी ३६
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

जनमेजय उवाच । कथं बहुयुगे काले समतीते द्विजोत्तम । न
जरा रेवतीं प्राप्ता रैवतं च ककुब्जिनम् ॥ १ ॥ येरुं गतस्य वा
तस्य शार्पतिः सन्ततिः कथम् । स्थिता पृथिव्यामद्यापि श्रोतु-
मिच्छामि तत्त्वतः ॥२॥ वैशम्पायन उवाच । न जरा क्षुत्पिपासे
वा न मृत्युर्मरतर्पभ । ऋतुचक्रं न भवति ब्रह्मलोके सदाऽनघ ३
ककुब्जिनस्तु तं लोकं रैवतस्य गतस्य ह । इता पुण्यजनैस्तत्
राक्षसैः सा कुशस्थली ॥ ४ ॥ तस्य भ्रातृशतं चासीद्दार्मिकस्य

पुरीकी रक्षा करते थे ३१।३४। हे अरिदमन ! इन सब बातोंको
यथार्थ रीतिसे जानकर वह रैवत अपनी रेवती नामवाली कन्याको
बलदेवजीको देकर अपने आप मेरुपर्वतके शिखर पर चला गया
और तहाँ तप करने लगा और धर्मात्मा बलराम भी रेवतीके
साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ दशम
अध्याय समाप्त ॥ १० ॥

६

६

६

जनमेजयने कहा, कि-हे द्विजोत्तम ! बहुतसे युग बीत जाने
पर भी रेवती और ककुब्जी रैवतको बुढ़ापा कैसे नहीं व्यापा १
और शार्पतिका प्रपौत्र रैवत जो मेरुपर्वत पर चला गया था, तब
भी उसकी सन्तान आज तक पृथ्वी पर कैसे वर्तमान हैं ? २।
वैशम्पायनजीने कहा कि-हे भरतर्पभ निष्पाप राजन् ! ब्रह्म-
लोकमें भूख प्यास और जरा नहीं व्यापती है और ऋतुचक्र भी
तहाँ अपना प्रभाव नहीं दिखाता है ॥३॥ हे तात ! जब रैवत
ककुब्जी ब्रह्मलोकको चला गया था, तब राक्षसोंने कुशस्थलीको

महोत्तमनः । तद्द्रव्यमानं रत्नोभिर्दिशः प्राद्वदच्युतम् ॥ ५ ॥
 विद्वत्स्य तु राजेन्द्र तस्य भ्रातृशतस्य चै । तेषां तु ते भयाक्रांताः
 क्षत्रियास्तत्र तत्र ह ॥ ६ ॥ अन्ववापस्तु सुमहांस्तत्र तत्र दिशा-
 पते । येषामेते महाराज शार्याता इति विश्रुताः ॥ ७ ॥ क्षत्रिया
 भरतश्रेष्ठ दिक्षु सर्वासु धार्मिकाः । सर्वशः पर्वतगणान् प्रविष्टाः
 कुरुनन्दन । नाभागारिष्टपुत्री द्वौ नैश्यां ब्राह्मणतां गतौ । करू-
 पस्य च कारूपाः क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः ॥ ८ ॥ मांशोरेकोऽभवत्
 पुत्रः प्रजातिरिति नः श्रुतम् । पृषधो हिंसयित्वा तु गुरोर्गा जन-
 मेजय ॥ १० ॥ शापाच्छुद्रत्वमापन्नो नवैते परिकीर्तिताः । नैवस्व-
 तस्य तनया मनोर्वै भरतर्षभ ॥ ११ ॥ क्षुत्रश्च मनोस्तप्त इच्चाकु-
 रभवन् सुतः । तस्य पुत्रशतं त्वासीदित्वाकोर्भूरिदक्षिणम् १२

नष्ट भ्रष्ट कर डाला था ॥ ४ ॥ धर्मात्मा और महात्मा रैवतके
 सौ भाई थे, वे अच्युत भी राजसोंके पीठने पर दिशाओंमेंको
 भाग गए प्रहे राजेन्द्र उन सौ भाइयोंके भाग जाने पर उनमेंके
 वे राजसोंमे भयभीत हुए क्षत्रिय जहाँ तहाँ (बस गए) । ६ ।
 और हे राजन् ! उनका बड़ाभारी वंश जिधर तिधर फैल गया,
 उनके वंशके ही ये धार्मिक क्षत्रिय सब दिशाओंमें शार्यात नाम
 से प्रसिद्ध हैं, हे कुरुनन्दन ! वे सब पर्वतोंमें भाग गए थे नाभा-
 गारिष्टके (नैश्यामें उत्पन्न होनेके कारण 'मातृजातयः पुत्रा स्युः'
 इस वचनके अनुसार) दो नैश्य पुत्र ब्राह्मणत्वको प्राप्त होगए
 अर्थात् उपशांत होगए करूपके कारूप नामक युद्धदुर्मद क्षत्रिय
 उत्पन्न हुए ॥ ८ ॥ और हमने सुना है, कि-मांशुके एक ही
 प्रजाति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था और हे जनमेजय ! गुरु
 की गौको मारने पर पृषध गुरुके श पसे शुद्रत्वको प्राप्त होगया
 हे भरतर्षभ ! ये तुभसे नैवस्वत मनुके नौ पुत्र कह
 दिये ॥ १० ॥ ११ । मनुके क्षुत्र करने (छींकने) पर इच्चाकु

तेषां विकृतिर्ज्येष्ठस्तु विकृतिवत्त्वादयोधताम् । प्राप्तः परमधर्मज्ञः
 सोऽयोध्याधिपतिः प्रभुः ॥१३॥ शकुनिप्रमुखास्तस्य पुत्राः पञ्चा-
 शदुत्तमाः । उत्तरापथदेशस्था रक्षितारो महीपते ॥ १४ ॥ चत्वा-
 रिंशदथाष्टौ च दक्षिणस्यां तथा दिशि । शशादप्रमुखाश्चान्ये
 रक्षितारो विशां पते ॥ १५ ॥ इच्छ्वाकुस्तु विकृतिं वै अष्टकाया-
 मथादिशत् । मांसमानय श्राद्धार्थं मृगान् हत्वा महाबलः ॥१६॥
 श्राद्धकर्मणि चोद्दिष्टं अकृते श्राद्धकर्मणि । भक्षयित्वा शशं तात
 शशादो मृमयागतः ॥ १७ ॥ इच्छ्वाकुणा परित्यक्तो वसिष्ठवच-
 नात् प्रभुः । इच्छ्वाकौ संस्थिते तात शशादस्तमथावसत् ॥१८॥
 शशादस्य तु दायादः ककुत्स्थो नाम वीर्यवान् । इन्द्रस्य वृष-

नाम वाला पुत्र हुआ था, उस इच्छ्वाकुके बहुतसी दक्षिणा देने
 वाले) सौ पुत्र उत्पन्न हुए थे उनमें जेठा विकृति विकृति
 (विपुल कुत्तिवाला) होनेसे अयोधताको प्राप्त हुआ था अर्थात्
 उसके सामने कोई योधा नहीं डट सकता था, वही परमधर्मज्ञ
 अयोध्याका स्वामी हुआ था ॥१३॥ उसके शकुनि आदि पचास
 उत्तम पुत्र थे, हे महीपते ! वे उत्तरापथमें स्थित होकर रक्षा करते
 थे ॥ १४ ॥ और हे विशांपते ! उसके शशाद आदि अड़तालीस
 पुत्र दक्षिण दिशाकी रक्षा करते थे ॥ १५ ॥ महाबली इच्छ्वाकु
 ने अष्टका श्राद्धके लिये अपने पुत्र शशादको आज्ञा दी, कि-तू
 मृगांको मारकर श्राद्धके लिये मांस ला ॥ १६ ॥ परन्तु श्राद्ध-
 कर्मके (पदार्थ) लानेकी आज्ञा देने पर भी श्राद्धकर्म समाप्त
 होनेसे पहिले शशाद शश (खरगोश) का भक्षण कर शिकार
 करके लाट आया ॥ १७ ॥ उस समय उसको वसिष्ठजीके (यह
 हनि उद्दिष्ट है मेरे) वचनसे इच्छ्वाकुने त्यागदिया था, हे तात !
 इच्छ्वाकुके मरने पर शशाद तहाँ आकर राज्य करने लगा ॥ १८
 शशादके ककुत्स्थ नामक वीर्यवान् पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने

भूतस्य ककुत्स्थोऽजयतासुरान् ॥ १६ ॥ पूर्णमाडीवके युद्धे ककु-
त्स्थस्तेन हि स्मृतः । अनेनास्तु ककुत्स्थस्य पृथुरानेनसः
स्मृतः ॥ २० ॥ विष्टरारवः पृथोः पुत्रस्तस्मादाद्र्स्त्वजायत ।
आर्द्रस्य युवनारवस्तु श्रावस्तस्य तु चात्मजः ॥ २१ ॥ जज्ञे
श्रावस्तको राजा श्रावस्ती येन निर्मिता । श्रावस्तस्य तु दायादो
वृहदश्वो महायशाः ॥ २२ ॥ कुव्लारवः सुतस्तस्य राजा परम
धार्मिकः । यः स धुन्धुवधाद्राजा धुन्धुमारत्वमागतः ॥ २३ ॥
जनमेजय उवाच । धुन्धोर्नधमहं ब्रह्मन् श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ।
यदर्थं कुव्लारवः सन् धुन्धुमारत्वमागतः ॥ २४ ॥ वैशम्पायन
उवाच । कुव्लारवस्य पुत्राणां शतमुत्तमधन्विनाम् । सर्वविद्यासु
निपुणा बलवन्तो दुरासदाः ॥ २५ ॥ वभूवुर्धार्मिकाः सर्वे

आडीवक नामक युद्धमें इन्द्रके वृषभ वनने पर उसके ककुद
(स्कंध)पर बैठ कर असुरोंको जीता था, उस युद्धमें इन्द्रने उसका
स्मरण किया था, अनेना ककुत्स्थका पुत्र हुआ और अनेनाका
पृथु नामक पुत्र कहा है । १६।२०। पृथुके विष्टरारव नामक पुत्र
हुआ, उसके आर्द्र नामक पुत्र हुआ, आर्द्रके युवनारव हुआ उसका
पुत्र श्राव नामक पुत्र हुआ २१ उसका नाम श्रावस्तक राजा
हुआ था, उसने श्रावस्ती पुरी बसाई थी, श्रावस्तके महायशस्वी
वृहदश्व नामक पुत्र हुआ । २२। उसका पुत्र परमधार्मिक राजा
कुव्लारव हुआ, वह धुन्धु नामक दैत्यको मारनेके कारण धुन्धु-
मार भी कहलाने लगा २३ जनमेजयने कहा कि-हे भगवन् !
मैं धुन्धुमारके वधको सुनना चाहता हूँ, जिसके कारण कुव्लारव
का नाम धुन्धुमार पड़ गया था । २४ । वैशम्पायन मुनिने
कहा, कि-कुव्लारवके श्रेष्ठ धनुर्गोंको धारण करने वाले सौ पुत्र
थे, वे सब विद्याधर्मोंमें निपुण थे बली थे और दुरासद थे २५
वे सब धार्मिक थे, यज्ञ करने वाले थे और बहुतसी दक्षिणा

यज्वानो भूरिदक्षिणाः । कुवलाश्वं सुतं राज्ये बृहदश्वो न्ययो-
जयत् ॥ २६ ॥ पुत्रसंक्रामितश्रीमस्तु वनं राजा समाविशत् ।
तमुत्तंकोऽथ विप्रर्षिः प्रयान्तं प्रत्यवारयत् ॥ २७ ॥ उत्तंक उवाच ।
भवता रक्षणं कार्यं तत्तावत्कर्तुमर्हसि । निरुद्विग्नस्तपश्चर्तुं न हि
शक्नोषि पार्थिव ॥ २८ ॥ त्वया हि पृथिवी राजन् रक्ष्यमाणा
महात्मना । भविष्यति निरुद्विग्ना नारण्यं गन्तुमर्हसि ॥ २९ ॥
पालने हि महान् धर्मः प्रजानामिह दृश्यते । न तथा दृश्यतेऽरण्ये
मां ते भूद्वुद्विरीदृशी ॥ ३० ॥ ईदृशो न हि राजेन्द्र धर्मः क्वचन
दृश्यते । प्रजानां पालने यो वै पुरा राजर्षिभिः कृतः । रक्षितन्या
प्रजा राज्ञा तास्त्वं रक्षितुमर्हसि ॥ ३१ ॥ ममाश्रमसमीपे हि समेषु
मरुधन्वसु । समुद्रो बालुकापूर्ण उज्जानक इति श्रुतः । देवता-

देने वाले थे, ऐसे कुवलाश्व पुत्रको बृहदश्वने राज्य पर नियुक्त
कर दिया २६ वह राजा राज्यलक्ष्मीको पुत्रके अर्पण करके
जब वनमेंको जाने लगा तब उसको विप्रर्षि उत्तंक रोकने लगे २७
कि-हे पार्थिव ! आपको (हमारी) रक्षा करनी चाहिये, उसके
आप पहिले करिये हे राजन् ! आप (हमारी रक्षा क्रिये बिना)
निरुद्विग्न होकर तप नहीं कर सकते २८ हे राजन् ! तुम्हें महात्मा
के रक्षा करने पर पृथ्वी निरुद्विग्न होजायगी। अत एव तुमको
वनमें जाना उचित नहीं है २९ यहाँ पर रह कर प्रजापालनसे
बड़ा धर्म होता है और वनमें रहनेसे ऐसा पुण्य नहीं होसकता,
अत एव तुम्हारी ऐसी बुद्धि न हो ३० हे राजेन्द्र ! प्रजापालन
का ऐसा धर्म तो कहीं नहीं दीखता है प्राचीन राजर्षियोंने प्रजा-
पालनको राजाका धर्म निश्चय किया है, अत एव तुम्हें उनकी
रक्षा करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ मेरे आश्रमके पास (पर्वत आदि
न होनेसे निम्नता और उन्नततासे रहित) सम (निर्जल) मरु
और (गोड़े जलवाले, धन्वोंमें (मनुष्योंके समूहसे शून्य) उज्जानक

नामवध्यश्च महाकायो महाबलः ॥ ३२ ॥ अन्तर्भूमिगतस्त्वत्र
 वाजुर्कातर्हितो महान् । राक्षसस्य मथोः पुत्रो धुन्धुर्नामा महा-
 स्रुरः । शोते लोकाविनाशाय तप आस्थाय दारुणम् ॥ ३३ ॥
 संवत्सरस्य पर्यन्ते स निःश्वासं प्रमुञ्चति । यदा तदा भूथलति
 सशैलवनकानना ॥ ३४ ॥ तस्य निःश्वासवातेन रज उद्बधूयते
 महत् । आदित्यपथमावृत्य सप्ताहं भूमिकम्पनम् ॥ ३५ ॥ सवि-
 र्फुल्लिगं सांगारं सधूममतिदारुणम् । तेन तात न शक्नोमि तस्मिन्
 स्थातुं स्वकाश्रमे ॥ ३६ ॥ तं मारय महाकायं लोकानां हित-
 काम्यया । लोकाः स्वस्था भवन्त्वद्य तस्मिन् विनिहतेऽसुरे ३७
 त्वं हि तस्य वधायैकः समर्थः पृथिवीपते । विष्णुना च वरो
 दत्तो मह्यं पूर्वयुगेऽनघ ॥ ३८ ॥ यस्त्वं महासुरं रौद्रं हनिष्यसि

नामंका बालुकापूर्णं समुद्रं प्रसिद्धं है तहाँ पर देवताओंसे अवध्य
 वड़े भारी शरीर वाला महाबली मधु राक्षसका पुत्र एक बड़ा-
 भारी धुन्धुर् दैत्य लोकोंका विनाश करनेके लिये दारुण तपका
 आश्रय करके रेतके भीतर सोरहा है ॥३२॥३३॥ जब वह वर्ष
 भर वीतजाने पर श्वास लेता है उस समय पर्वत वन और
 पृथ्वी काँप उठती है ॥३४॥ उसके श्वासकी वायुसे वड़ी भारी
 धूलि उड़ कर सूर्यके मार्गको छा लेती है और एक सप्ताह तक
 भूकंप होता रहता है ॥ ३५ ॥ (उस समय पृथ्वीमेंसे) चिनगा-
 रिये, अंगारे और अतिदारुण धूम निकलने लगता है. इस
 कारण हे तात ! मैं अपने आश्रममें सुखपूर्वक नहीं रहसकता ३६
 तुम लोकोंका हित करनेकी इच्छासे उस वड़े भारी शरीर वाले
 असुरका नाश करो, उस असुरके मारे जाने पर लोक स्वस्थ
 होजावेंगे ३७ हे पृथिवीपते ! एक तुमही उसका वध करनेमें
 समर्थ हो और हे अनघ ! ब्रह्माजीने मुझे पूर्वयुगमें वर दिया
 था, कि-॥ ३८ ॥ कि तू (राजा) इस महाबली वड़े भारी

महाबलम् । तस्य त्वं वरदानेन तेज आप्याययिष्यसि ॥ ३६ ॥
न हि धुन्धुर्महातेजास्तेजमाऽल्पेन शक्यते । निर्दग्धुं पृथिवीपाल
स हि वर्षशतैरपि । वीर्यं हि सुमहत्तस्य देवैरपि दुरासदम् ४०
स एवमुक्तो राजर्षिरुत्तंकेन महात्मना । कुवलाश्वं सुतं मादा-
त्तस्मै धुन्धुनिवारणे ॥ ४१ ॥ बृहदश्व उवाच । भगवन्न्यस्त-
शस्त्रोऽहमयं तु तनयो मम । भविष्यति द्विजश्रेष्ठ धुंघुमारो न
संशयः ॥ ४२ ॥ स तं व्यादिश्य तनयं राजर्षिर्धुन्धुमारणे ।
जगाम पर्वतायैव तपसे संशितव्रतः ॥ ४३ ॥ कुवलाश्वस्तु पुत्राणां
शतेन सह पार्थिवः । प्रायादुत्तंकसहितो धुन्धोस्तस्य विनिग्रहेऽऽ
तमाविशत्तदा विष्णुर्भगवांस्तेजसा प्रभुः । उत्तंकस्य नियोगाद्द्वै
लोकस्य हितकाम्यया ॥ ४४ ॥ तस्मिन् प्रयाते दुर्धर्षे दिवि शब्दो
रौद्र दैत्यका संहार करेगा, उस वरदानके कारण तुम्हारा तेज
बढ़ेगा ॥ ३६ ॥ हे पृथिवीपते ! महातेजस्वी धुन्धुको अल्प तेज
वाला पुरुष सौ वर्षमें भी नहीं मार सकता उसमें ऐसा बल है,
कि-देवता भी उसको कठिनतासे दबा सकते हैं ॥ ४० ॥ राजर्षि
बृहदश्वने महात्मा उत्तंककी बात सुन कर धुंघुको मारनेके लिये
अपने पुत्र कुवलाश्वको मुनिके लिये देदिया था ॥ ४१ ॥ बृह-
दश्वने कहा, कि-हे भगवन् ! मैंने तो शस्त्र त्याग दिये हैं किन्तु
हे द्विजश्रेष्ठ ! यह मेरा पुत्र (आपके अर्पण है, यह) अवरय
धुन्धुमार होगा ॥ ४० ॥ (यह कह) उन राजर्षिके अपने पुत्र
को धुन्धुको मारनेकी आज्ञा दी और वह संशितव्रत अपने आप
तो तप करनेको ही चले गए । ४३ । तदनन्तर कुवलाश्व अपने
सौ पुत्रोंको और उत्तंकको साथमें लेकर धुन्धुका निग्रह करनेके
लिये चला ४४ उस समय भगवान् विष्णु उत्तङ्क अपिके कहने
से लोभोंका हिन करनेके लिये उस राजाके शरीरमें अपने
तेजस्वरूपसे प्रविष्ट होगए प्रयात् उन्होंने अपना तेज राजाको

महानभूत् । एष श्रीमानवधोऽत्र धुन्धुमारो भविष्यति ॥४६॥
 दिव्यैर्मान्यैश्च तं देवाः समन्तात् समवाकिरन् । देवदुन्दुभयश्चापि
 मण्डुर्भरतर्षभ ॥ ४७ ॥ स गत्वा जयतां श्रेष्ठस्तनयैः सह वीर्य-
 वान् । समुद्रं खानयामास वालुकार्णवमन्ययम् ॥ ४८ ॥ नारा-
 यणेन कौरव्यतेजसा व्यापिनः स वै । वभूव स महातेजा भूयो
 बलसमन्वितः ॥ ४९ ॥ तस्य पुत्रैः खनद्भिस्तु वालुकांतर्हित-
 स्तदा । धुन्धुरासादितो राजन् दिशमावृत्य पश्चिमाम् ॥ ५० ॥
 मुखजेनाग्निना क्रोधान्त्वोकानुद्वर्तयन्निव । वारि सुस्राव वेगेन
 महोदधिरिवोदये ॥ ५१ ॥ सोमस्य भरतश्रेष्ठ धारोर्मिकलिलं
 महत् । तस्य पुत्रशतं दग्धं त्रिभिरून् तु रक्षसा ॥ ५२ ॥ ततः स

दे दिया ४५, उस दुराधर्ष राजाके प्रस्थान करने पर आकाशमेंसे
 गम्भीर वाणी सुनाई दी कि—“यह श्रीमान् अवश्य राजा आग
 धुन्धुमार होजायगा” ४६ उसीसमय देवताओंने उसके ऊपर
 दिव्य पुष्पांकी वर्षाकी, हे भरतर्षभ ! उस समय उन्होंने अपनी
 देवदुन्दुभियें वजाई ॥ ४७ ॥ और जीतने वालोंमें श्रेष्ठ वह
 वीर्यवान् राजा अपने पुत्रोंके साथ तहाँ पहुँचकर वालुकासे पूर्ण
 समुद्रको खुदवाने लगा । ४८ । हे कौरव्य ! वह महाबली राजा
 नारायणके तेजसे व्याप्त होनेके कारण और भी अधिक तेजस्वी
 होगया ४९ हे भरतश्रेष्ठ ! उसके पुत्रोंने खोदते २ वालुकामें छिपे
 हुए धुन्धु दैत्यको पश्चिम दिशाको व्याप्त कर सोतेहुए देखा ५०
 उस समय वह क्रोधमें भर अपने मुखमेंसे अग्नि निकालकर
 लो कोको लौट पौटसा करने लगा और हे भरतश्रेष्ठ ! धारा लहर
 और कीचड़ वाला समुद्र जिस प्रकार चन्द्रमाको देखकर बढ़ता
 है, इसी प्रकार वह (अपने शरीरसे) जलनी वेगसे बढ़ाने लगा,
 इस प्रकार उस राक्षसने राजाके सत्तानवें पुत्रोंको भस्म कर
 दिया ५२ हे कौरव्य ! इस घटनाके अनन्तर धुन्धुको दवानेके

राजा कौरव्य राक्षसं तं महाबलम् । आससाद महातेजा धुन्धुं
 धुन्धुनिवर्हणः ॥५३॥ तस्य वारिमयं वेगमपिवत् स नराधिपः ।
 योगी योगेन वह्निं च शमयामास वारिणा ॥ ५४ ॥ निहत्य तं
 महाकायं बलेनोदकराक्षसम् । उत्तकं दर्शयामास कृतकर्मा नरा-
 धिपः ॥ ५५ ॥ उत्तकस्तु वरं प्रादात्तस्मै राज्ञे महात्मने । ददौ
 तस्याक्षयं वित्तं शत्रुभिश्चापराजयम् ॥ ५६ ॥ धर्मं रतिं च सततं
 स्वर्गनासं तथाऽन्नयम्-पुत्राणां चान्नयान्लोकान् स्वर्गं ये रक्षसा
 हताः ॥ ५७ ॥

इति श्रीमहाभारते ग्विलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

वीशम्पायन उवाच । तस्य पुत्रास्त्रयः शिष्टा दृष्ट्वा उषेष्ट
 उच्यते । चन्द्राश्वकपिलाश्वौ तु कुमारौ द्वौ कनीयसौ ॥ १ ॥
 धुन्धुमारिर्दृष्ट्वाश्वस्तु हर्यश्वस्तस्य चात्मजः । हर्यश्वस्तु निकुं-

लिये आये हुए उस महातेजस्वी राजाने उस महाबली राक्षसको
 देखा ५३ फिर उस योगी राजाने योगके द्वारा जलके प्रवाहको
 पीलिया और जलसे अग्निको शान्त कर दिया ५४ राजाने उस
 महाशरीर वाले जलीय राक्षसको बलपूर्वक मार कर उत्तक मुनि
 को दिखाया ५५ उस समय उत्तकने उस महात्मा राजाको वर
 दिया, कि-तेरा धन अखूट रहेगा, शत्रु तेरा पराजय न कर
 सकेंगे, धर्म पर तेरी सदा प्रीति रहेगी तथा तुझे स्वर्गमें अक्षय
 वास मिलेगा, और राक्षसने तेरे जिन पुत्रोंको मार डाला है
 उनको स्वर्गमें अक्षय लोक मिलेंगे । ५६ । ५७ । एकादश
 अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥

वीशम्पायन मुनिने कहा, कि उसके तीन पुत्र बचे थे, उनमें
 बड़ा पुत्र दृष्ट्वाश्व कहलाता था और दो छोटे चन्द्राश्व और
 धुन्धुमारवा पुत्रदृष्ट्वाश्व था उसका

भोऽभूत् क्षत्रधर्मरतः सदा ॥ २ ॥ संहताश्वो निकुम्भस्य पुनो
रणविशारदः । अकृशाश्वः कृशाश्वश्च संहतारवसुतो नृप ॥३॥
तस्य हिमवती कन्या सतां माता दृपद्वती । द्विजमता त्रिपु लोकेषु
पुनरचास्याः प्रसेनजित् ॥ ४ ॥ स्तोत्रे प्रसेनजिज्ञार्यां गौरीं नाम
पतिव्रताम् । अभिशप्ता तु सा भर्ता नदी वै बाहुदाऽभवत् ॥५॥
तस्याः पुत्रो महानासीद्युवनाश्वो महीपतिः । मान्धाता युवना-
श्वस्य त्रिलोकविजयी स्रुतः ॥ ६ ॥ तस्य चैत्ररथी भार्या शश-
विंदोः सुताऽभवत् । साऽधी विन्दुमती नाम रूपेणासदृशी भुवि
पतिव्रता च ज्येष्ठर च भ्रातृणामप्युतस्य सा । तस्यामुत्पादयामास
मान्धाता द्वौ सुतो नृप ॥ ८ ॥ पुरुकुत्सं च धर्मज्ञं मुचुकुन्दं च
धार्मिकम् । पुरुकुत्सस्युतस्त्रासीत्त्रसदस्युर्महीपतिः ॥ ९ ॥ नर्म-

पुत्र हर्षश्च हुआ; हर्षरवके निकुम्भ नामक पुत्र था, वह क्षत्रियधर्म
में सदा तत्पर रहता था २ निकुम्भके संहतारवनामक रणविशारद
पुत्र उत्पन्न हुआ, हे नृप ! संहतारवके अकृशाश्व और कृशाश्व
नामक पुत्र उत्पन्न हुए ३ उसके हिमवान्की कन्या दृपद्वती नाम
वाली भार्या थी वह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध थी उसके प्रसेनजित्
नामवाला पुत्र भी हुआ था, इस प्रकार वह (तीन) सज्जन
पुत्रोंकी माता थी ॥ ४ ॥ प्रसेनजित्के गौरी नाम वाली पतिव्रता
भार्या थी, वह भर्ताके शाप देने पर बाहुदा नदी बन गई थी ५
उसका पुत्र उड़ा उदार था उसका नाम राजा युवनाश्व था,
युवनाश्वके त्रैलोक्यविजयी मान्धाता नामका पुत्र हुआ ॥ ६ ॥
उसकी चैत्ररथमें उत्पन्न हुई शशविन्दुकी पुत्री भार्या थी, उस
साऽधीका त्रिन्दुमती नाम था और वह पृथिवीमें अनुपम रूप-
वती थी ७ वह पतिव्रता थी उसके एक लाखन भाई थे और वह उनमें
बड़ी थी, हे राजन् ! मान्धाताने उसमें धर्मज्ञ पुरुकुत्स और धार्मिक
मुचुकुन्द इन दो पुत्रोंको उत्पन्न किया था, पुरुकुत्सका पुत्र त्रसदस्यु

दायामथोत्पन्नः संभूतस्तस्य चात्मजः । संभूतस्य तु दायाम्दः
 सुधन्वा नाम पार्थिवः ॥ १० ॥ सुधन्वनः सुतश्चासीत् त्रिधन्वा
 रिपुमर्दनः । राह्वस्त्रिधन्वनस्त्वासीद्दिदांश्चर्य्यारुणः सुतः ॥ ११ ॥
 तस्य सत्यव्रतो नाम कुमारोऽभून्महाबलः । पाणिग्रहणमन्त्राणां
 विघ्नं चक्रे मुदुर्मतिः ॥ १२ ॥ येन भार्या हृता पूर्व कृतोद्वाहा
 परस्य वै । वाल्पात् कामाच्च मोहाच्च संवर्षाच्चापलेन च १३
 जहार कन्यां कामात् स कस्यचित् पुरवांसिनः । अधर्मशंकुना
 तेन राजा त्रय्यारुणोऽत्यजत् ॥ १४ ॥ अप-वसेति बहुशो वदन्
 क्रोधसमन्वितः । पितरं सोऽब्रवीत्यक्तः क्व गच्छामीति वै मुहुः १५
 पिता त्वेनमथोवाच श्वगाकैः सह वर्तय । नाहं पुत्रेण पुत्रार्थं
 त्वयाऽथ कुलपांसन ॥ १६ ॥ इत्युक्तः स निराक्रामन्नगराद् वचनात्

नामक राजा हुआ ॥ ८ ॥ ९ ॥ उसके नर्मदा नामवाली स्त्रीसे
 संभूतनामक पुत्र उत्पन्न हुआ, संभूतके पुत्रका 'सुधन्वा राजा
 नाम पा ॥ १० ॥ सुधन्वाके रिपुमर्दन त्रिधन्वा पुत्र हुआ, राजा
 त्रिधन्वाके त्रय्यारुण नामक पुत्र हुआ ११ उसका सत्यव्रत नामक
 महाबली कुमार हुआ वह दुर्मति पाणिग्रहणके 'नावेहि संभवावहै
 पुंसे पुत्राय वेत्त वै' इत्यादि) मन्त्रोंमें विघ्न डालने लगा १२
 उसने बालकपन काम मोह हर्ष और चपलताके कारण दूसरे
 की विवाहित स्त्रीको छीन लिया था ॥ १३ ॥ और उसने एक
 पुरवासीकी कन्याको छीन लिया था इस प्रकार अधर्मकी कीलसे
 विधनेके कारण राजा त्रय्यारुणने क्रोधमें बहुत बार हे अपवसेस !
 हे अपवसेस ! (विलोमज) कह कर उसको त्याग दिया, तब उसने
 अपने पितासे बारम्बार कहा, कि-मैं कहाँ जाऊँ ॥ १४ ॥ १५ ॥
 तब उसने पिताने कहा, कि-तू श्वगाकों. (चाण्डालविशेषों) में
 रह और हे कुलपांसन ! मैं तुम्हें ऐसे पुत्रसे पुत्रवान् बनना नहीं
 चाहना ॥ १६ ॥ इस प्रकार कहने पर वह पिताके वचनानुसार

पितुः । न च तं वारयामास वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ १७ ॥ स
 तु सत्यव्रतस्तात श्वपानावसथान्तिके । पित्रा त्यक्तोऽवसदीरः
 पिता तस्य वनं ययौ ॥१८॥ ततस्तस्मिंस्तु विषये नावर्षत् पाक-
 शासनः । समा द्वादश राजेन्द्र तेनाश्रमेषु तदा ॥१९॥ दारास्तु
 तस्य विषये विश्वामित्रो महातपाः । सन्पस्य सागरानूपे चचार
 त्रिपुल तपः ॥२०॥ तस्य पत्नी गले बध्वा मध्यमं पुत्रमौरसम् ।
 शेषस्य भरणार्थाय व्यकीर्णाद्गोशतेन वै ॥ २१ ॥ तं तु बद्धं
 गले दृष्ट्वा विक्रीयन्तं नृपात्मजः । महर्षिपुत्रं धर्मात्मा मोक्षया-
 मास भारत ॥२२॥ सत्यव्रतो महाबाहुर्भरणं तस्य चाकरोत् ।
 विश्वामित्रस्य तुष्ट्यर्थमनुकंपार्थमेव च ॥ २३ ॥ सोऽभवद्बालवो

नगरमेंसे बाहर निकल गया, उस समय भगवान् वसिष्ठने उसको
 नहीं रोका ॥१७॥ धीरे-सत्यव्रत पिताके त्यागनेसे चाण्डालोंके
 घरोंके पास रहने लगा और उसका पिता त्रय्यारुण (विरक्त
 होकर) वनको चला गया ॥ १८ ॥ हे राजेन्द्र ! उस समय उस
 देशमें उस (ब्राह्मणकी कन्याका हरण करनेसे) अधर्मके कारण
 बारह वर्ष तक इन्द्रने वर्षा नहीं बरसाई ॥ १९ ॥ उस समय
 महातपस्वी विश्वामित्र उस देशमें अपनी स्त्रीको न्यास (धरो-
 हड़) रूपसे रख कर सागरानूपमें घोर तप करने लगे ॥ २० ॥
 विश्वामित्रकी स्त्री कुटुम्बको पालनेके लिये अपने मध्यम पुत्रको
 गलेमें बाँधकर उसको सौ गौओंके बदलेमें बेचती हुई फिरने
 लगी ॥ २१ ॥ हे भारत ! धर्मात्मा राजपुत्रने उसको गलेमें
 बाँध कर विकता हुआ देख कर उस महर्षिपुत्रको छुड़ा दिया २२
 फिर महाभुज सत्यव्रतने विश्वामित्रको सन्तुष्ट करनेके लिये और
 उनकी अनुकंपा पानेके लिये उस पुत्रका भरणपोषण किया २३
 वह महातपस्वी गलेमें बाँधनेके कारण गालव नामसे प्रसिद्ध हुआ,

नाम गत्वन्ध्यान्महातपाः । महर्षिः कौशिकस्तात तेन वीर्येण
मोक्षितः ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि
द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

वैशम्पायन उवाच । सत्यव्रतस्तु भक्त्या च कृपया च प्रति-
जया । विश्वामित्रकलत्रं तद्भार विनये स्थितः ॥ १ ॥ हत्वा
मृगान् वराहांश्च महिषांश्च वनेचरान् । विश्वामित्राश्रमाभ्याशे
मांसं वृक्षे बबन्ध सः ॥ २ ॥ उपांशुव्रतमास्थाय दीक्षां द्वादश-
चोर्णिकीम् । पितुर्नियोगादवसत्तस्मिन् वनगते नृपे ॥ ३ ॥
अयोध्यां चैव राष्ट्रं च तथैवान्तःपुरं मुनिः । याज्योपाध्याय-
सम्बन्धाद्वसिष्ठः पर्यरक्षत ॥४॥ सत्यव्रतस्तु बाल्याच्च भावि-
नोऽर्ष्यस्य वा बलात् । वसिष्ठेऽभ्यधिकं मन्त्रं धारयामास वै

हे तात ! (इस प्रकार) उस वीरने उस कुशिकवंशीको छुड़ाया
था ॥ २४ ॥ वारहके अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-सत्यव्रत (विश्वामित्र आराध्य
हैं, इम) भक्तिसे और (उसका कुटुम्ब अनाथ हैं अत एव)
कृपाके कारण और (मैं वसिष्ठजीकी शिष्यताको छोड़ दूंगा
ऐसी) प्रतिज्ञाके कारण विनयपूर्वक विश्वामित्रकी स्त्रीका पालन
करने लगा ॥ १ ॥ वह वनमें फिरनेवाले हिरन सूअर और
भैंसोंको मार कर उनका मांस विश्वामित्रके आश्रमके पासके
वृक्षोंमें बाँध देता था वह पिताके वनमें जाने पर पिताकी आज्ञा
से वारह वर्षकी दीक्षा लेकर चुपचाप (किसीको विदित न हो,
इस प्रकार) व्रत करने लगा ॥ ३ ॥ पुरोहिताई और यजमानी
के सम्बन्धके कारण मुनि वसिष्ठ अयोध्याकी राष्ट्री और अन्तः-
पुरकी रक्षा करने लगे ४ सत्यव्रत भावीके बलके कारण और
बालकपनके कारण वसिष्ठजीके ऊपर परम कुपित रहने लगा

तदा ॥ ५ ॥ पित्रा तु तं तदा राष्ट्राख्यज्यमानं स्वमात्मजम् ।
 न वारयामास मुनिर्वसिष्ठः कारणेन ह ॥ ६ ॥ पाणिग्रहण-
 मन्त्राणां निष्ठा स्यात् सप्तमे पदे । न च सत्यव्रतस्तस्य तमुपांशु-
 मबुध्यत ॥ ७ ॥ जानन् धर्मं वसिष्ठस्तु न मां व्रातीति भारत ।
 सत्यव्रतस्तदा रोषं वसिष्ठे मनसाऽकरोत् ॥ ८ ॥ गुणबुद्ध्या तु
 भगवान् वसिष्ठः कृतवांस्तथा । न च सत्यव्रतस्तस्य तमुपांशु-
 मबुध्यत ॥ ९ ॥ तस्मिन्नपरितोषो यः पितुरासीन्गहात्मनः । तेन
 द्वादशवर्षाणि नावर्षत्पाकशासनः ॥ १० ॥ तेन त्विदानीं बहता
 दीक्षां तां दुर्बहां भुवि । कुलस्य निष्कृतिस्तात कृता सा वै भवे-
 दिति ॥ ११ ॥ न तं वसिष्ठो भगवान् पित्रा त्यक्तं न्यवारयत् ।

परन्तु मुनि वसिष्ठने तो उसके पिताको अपने पुत्रको राज्यसे
 निकालते समय कारणवश नहीं रोका था (आशय यह था कि-
 यह कुछ समय तक मायश्रित कर ले) देपाणिग्रहणके मन्त्र सातवें
 पदके पूर्ण होनेपर हुए माने जाते हैं (और इसने सप्तपदीसे पूर्व ही
 कन्याका हरण कर लिया अत एव यह चारह वर्षका मायश्रित
 करे) वशिष्ठजीके इस गूढ़ आशयको सत्यव्रत समझ न सका
 था ॥ ७ ॥ हे भारत ! उसने समझा, कि वसिष्ठजी धर्मको
 जानते थे, तब भी इन्होंने मेरी रक्षा नहींकी यह विचार सत्य-
 व्रत वसिष्ठजीसे मनमें क्रुद्ध रहने लगा ॥ ८ ॥ परन्तु भगवान् !
 वसिष्ठजीने उसको गुणी बनानेकी बुद्धिसे ऐसा किया था, परन्तु
 सत्यव्रत उनके इस गूढ़ आशयको समझ न सका (सत्यव्रत)
 के पिताके असन्तुष्ट होजानेके कारण उसके राज्यमें चारह
 वर्ष तक इन्द्रने वर्षा नहींकी थी ॥ १० ॥ यदि (सत्यव्रत) इस
 पृथिवीमें दुर्बह दीक्षाको धारण कर लेगा तो इसके कुलका
 उद्धार होजायगा ॥ ११ ॥ यह विचार कर भगवान् वसिष्ठजीने
 उसके पिताको नहीं रोका था, उनका विचार था, कि-(माय-

नाम गल्लवन्धान्महातपाः । महर्षिः कौशिकस्तात तेन वीरेण
मोक्षितः ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि
द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

वैशम्पायन उवाच । सत्यव्रतस्तु भक्त्या च कृपया च प्रति-
ज्ञया । विश्वामित्रकलत्रं तद्गन्धर्व विनये स्थितः ॥ १ ॥ हत्वा
सृगान् वराहांश्च महिषांश्च वनेचरान् । विश्वामित्राश्रमाभ्याशे
मांसं वृत्ते बन्ध सः ॥ २ ॥ उपांशुव्रतमास्थाय दीक्षां द्वादश-
वर्षिकीम् । पितृर्नियोगादवसत्तस्मिन् वनगते नृपे ॥ ३ ॥
अयोध्यां चैव राष्ट्रं च तथैवान्तःपुरं मुनिः । याज्योपाध्याय-
सम्बन्धाद्बसिष्ठः पर्यरक्षत ॥४॥ सत्यव्रतस्तु बाल्याच्च भावि-
नोऽर्थस्य वा बलात् । बसिष्ठेऽभ्यधिकं मन्त्र्यं धारयामास वै

हे तात ! (इस प्रकार) उस वीरने उस कुशिकवंशीको छुड़ाया
था ॥ २४ ॥ बारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-सत्यव्रत (विश्वामित्र आराध्य
है, इस) भक्तिसे और (उसका कुटुम्ब अनाथ है अत एव)
कृपाके कारण और (मैं बसिष्ठजीकी शिष्यताको छोड़ दूँगा
ऐसी) प्रतिज्ञाके कारण विनयपूर्वक विश्वामित्रकी स्त्रीका पालन
करने लगा ॥ १ ॥ वह वनमें फिरनेवाले हिरन सूअर और
भैंसोंको मार कर उनका मांस विश्वामित्रके आश्रमके पासके
वृत्तोंमें बाँच देता था वह पिताके वनमें जाने पर पिताकी आज्ञा
से बारह वर्षकी दीक्षा लेकर चुपचाप (किसीको विदित न हो,
इस प्रकार) व्रत करने लगा ॥ ३ ॥ पुरोहिताई और यजमानी
के सम्बन्धके कारण मुनि बसिष्ठ अयोध्याकी राष्ट्रकी और अन्तः-
पुरकी रक्षा करने लगे ४ सत्यव्रत भावीके बलके कारण और
बालकपनके कारण बसिष्ठजीके ऊपर परम कुपित रहने लगा

तदा ॥ ५ ॥ पित्रा तु तं तदा राष्ट्राख्यज्यमानं स्वमात्मजम् ।
 न चारथामास मुनिर्वसिष्ठः कारणेन ह ॥ ६ ॥ पाणिग्रहण-
 मन्त्राणां निष्ठा स्यात् सप्तमे पदे । न च सत्यव्रतस्तस्य तमुपांशु-
 मबुध्यत ॥ ७ ॥ जानन् धर्मं वसिष्ठस्तु न मां ज्ञातीति भारत ।
 सत्यव्रतस्तदा रोषं वसिष्ठे मनसाऽकरोत् ॥ ८ ॥ गुणबुद्ध्या तु
 भगवान् वसिष्ठः कृतवांस्तथा । न च सत्यव्रतस्तस्य तमुपांशुम-
 बुध्यत ॥ ९ ॥ तस्मिन्नपरितोषो यः पितुरासीन्गहात्मनः । तेन
 द्वादशवर्षाणि नावर्षत्पाकशासनः ॥ १० ॥ तेन त्विदानीं बहता
 दीक्षां तां दुर्वहां भुवि । कुलस्य निष्कृतिस्तात कृत्वा सा वै भवे-
 दिति ॥ ११ ॥ न तं वसिष्ठो भगवान् पित्रा त्यक्तं न्यवारयत् ।

परन्तु मुनि वसिष्ठने तो उसके पिताको अपने पुत्रको राज्यसे
 निकालते समय कारणबश नहीं रोका था (आशय यह था कि-
 यह कुछ समय तक प्रायश्चित कर ले) वे पाणिग्रहणके मन्त्र सातवें
 पदके पूर्ण होनेपर हुए माने जाते हैं (और इसने सप्तपदीसे पूर्व ही
 कन्याका हरण कर लिया अत एव यह बारह वर्षका प्रायश्चित
 करे) वसिष्ठजीके इस गूढ़ आशयको सत्यव्रत समझ न सका
 था ॥ ७ ॥ हे भारत ! उसने समझा, कि-वसिष्ठजी धर्मको
 जानते थे, तब भी इन्होंने मेरी रक्षा नहींकी यह विचार सत्य-
 व्रत वसिष्ठजीसे मनमें क्रुद्ध रहने लगा ॥ ८ ॥ परन्तु भगवान् !
 वसिष्ठजीने उसको गुणी बनानेकी बुद्धिसे ऐसा किया था, परन्तु
 सत्यव्रत उनके इस गूढ़ आशयको समझ न सका (सत्यव्रत)
 के पिताके असन्तुष्ट होजानेके कारण उसके राज्यमें बारह
 वर्ष तक इन्द्रने वर्षा नहींकी थी ॥ १० ॥ यदि (सत्यव्रत) इस
 पृथिवीमें दुर्वह दीक्षाको धारण कर लेगा तो इसके कुलका
 उद्धार होजायगा ॥ ११ ॥ यह विचार कर भगवान् वसिष्ठजीने
 उसके पिताको नहीं रोका था, उनका विचार था, कि-(प्राय-

अभिषेचाम्यहं पुत्रमस्येत्येवं मतिर्मुनेः ॥ १२ ॥ स तु द्वादश-
वर्षाणि दीक्षां तामुद्ब्रह्मली । उपांशुव्रतमास्थाय महत्सत्यव्रतो
नृप ॥ १३ ॥ अविद्यमाने मासे तु वसिष्ठस्य महात्मनः । सर्व-
कामदुःखां दोग्ध्रीं ददर्श स नृपात्मजः ॥ १४ ॥ तां वै क्रोधाच्च
मोहाच्च श्रमाच्चैव लुधादितः । दशधर्मान् गतो राजा जघान जन-
मेजय ॥ १५ ॥ तच्च मांसं स्वयं चैव विश्वामित्रस्य चात्मजान् ।
भोजयामास तच्छ्रुत्वा वसिष्ठोऽप्यस्य चुक्रुधे । क्रुद्धस्तु भगवान्
वाक्यमिदमाह नृपात्मजम् ॥ १६ ॥ वसिष्ठ उवाच । पातयेयमहं
क्रूर तव शंकुमसंशयम् । यदि ते द्वाविर्मां शंकु न स्यातां वै कृती
पुनः ॥ १७ ॥ पितृश्चापरितोषेण गुरोर्दोग्ध्रीवधेन च । अपो-

शिवत्तके अनन्तर) मैं उसके पुत्रका अभिषेक करूँगा ॥ १२ ॥
हे नृप ! वली सत्यव्रतने चुपचाप दीक्षा धारण कर बारह वर्ष
तक महाव्रतको धारण किया ॥ १३ ॥ एक समय मांसके निबड़
जाने पर उसने सब कामनाओंको पूर्ण करने वाली महात्मा
वसिष्ठजीकी दुधेर गौको देखा ॥ १४ ॥ हे जनमेजय ! राजाने
उस गौको क्रोध मोह श्रमके कारण और भूँवसे पीड़ा पानेके
कारण दशधर्मोंको प्राप्त होने पर मार डाला (वे दश धर्म उस
प्रकार हैं, - "मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्त क्रुद्धो वधुन्नितः । त्वर-
माणश्च भीरुश्च लुब्धः कामी च ते दश ।") १५ उस मांसको उसने
विश्वामित्रके पुत्रोंको गिलाया और अपने आप भी खाया, यह
सुन कर वसिष्ठ भी क्रोधमें भर गए क्रोधमें भरे हुए वसिष्ठजीने
राजाके पुत्रसे यह बात कही कि- ॥ १६ ॥ वसिष्ठजीने कहा, कि-
हे क्रूर ! मैं तेरे शंकु (दोष) को अवश्य ही नष्ट करदूँगा जिससे
तेरे ये दो शंकु (दोष) तेरे चाहने पर भी तुझसे न होसकेंगे १७
पिताको सन्तुष्ट न रखना, गुरुजी गौकी हत्या करना, अपो-
न्नित (असंस्कृत) मांसका उपयोग करना (खाना) इस प्रकार

त्तितोपयोगाच्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः ॥१८॥ वैशम्पायन उवाच ।
 एवं श्रीएयस्य शंकूनि तानि दृष्ट्वा महातपाः । त्रिशंकुरिति होवाच
 त्रिशंकुरिति सः स्मृतः ॥ १९ ॥ विश्वामित्रस्तु दाराणामागतो
 भरणे कृते । स तु तस्मै वरं प्रादान्मुनिः प्रीतस्त्रिशंकुवे ॥२०॥
 छन्दमानो वरेणाय वरं वने नृपात्मजः । सशरीरो वने स्वर्ग-
 मित्येवं याचितो मुनिः ॥२१॥ अनादृष्टिभये तस्मिन् गते द्वादश-
 वार्षिके । राज्येभिषिष्य पिष्ये तु याजयामास वं मुनिः ॥२२॥
 मिपतां देवतानां च वसिष्ठस्य च कौशिकः । सशरीरं तदा वं तु
 दिवमारोपयत् प्रभुः ॥ २३ ॥ तस्य सत्परथा नाम भार्या कैक्य-
 वंशजा । कुमारं जनयामास हरिश्चन्द्रमकल्पमम् ॥ २४ ॥ स वै
 राजा हरिश्चन्द्रश्चैशंकव इति स्मृतः । आहर्ता राजसूयस्य सः सम्रा-
 डिति विश्रुतः ॥ २५ ॥ हरिश्चन्द्रस्य पुत्रोऽभूद्रोहितो नाम वीर्य-
 तेरा तीन प्रकारका दोष है ॥ १८ ॥ वैशम्पायन मुनिने कहा,
 कि-महातपस्वी वसिष्ठजीने इस प्रकार उसके तीन शङ्कुओं (दोषों)
 को देखकर त्रिशंकु कहा था, कि तबसे वह त्रिशंकु कहलाने लगा १९
 (काल दूर होने पर) विश्वामित्रजी (तहाँ) आगये और वह
 मुनि आपनी स्त्रीका भरण पोषण करनेके कारण त्रिशंकुको वर
 देने लगे ॥ २० ॥ वरके लिये कहने पर राजकुमारने घर माँगा
 था, उसने मुनिसे याचना की, कि-“मैं सशरीर ही स्वर्गमें
 जाऊँ” ॥ २१ ॥ बारहवर्षकी अदृष्टिके वीत जाने पर विश्वामित्र
 उसको उस पिताके राज्य पर अभिषेक करके उसको यज्ञ कराने
 लगे ॥ २२ ॥ तदनन्तर कौशिक वसिष्ठ और देवताओंकी दृष्टि
 के सामने ही सशरीर ही उसको स्वर्गमें चढ़ा दिया था ॥२३॥
 उसकी भार्या कैक्यवंशकी थी उसका नाम सत्परथा था, उसने
 हरिश्चन्द्र नामक निष्पाप कुमारको उत्पन्न किया था ॥ २४ ॥
 वह राजा हरिश्चन्द्र चैशंकव नामसे प्रसिद्ध था उसने राजसूय

वान् । येनेदं रोहितपुरं कारितं राजसिद्धये ॥२६॥ कृत्वा राज्यं
 स राजर्षिः पालयित्वा त्वय मजाः । संसारासारतां ज्ञात्वा द्विजे-
 भ्यस्तत् पुरं ददौ ॥२७॥ हरितो रोहितस्याथ चंचुर्हारीत उच्यते ।
 विजयश्च सुदेवश्च चंचुपुत्रौ बभूवतुः ॥ २८ ॥ जेता क्षत्रस्य
 सर्वस्य विजयस्तेन संस्मृतः । रुक्मस्तनयस्तस्य राजा धर्मार्थ-
 क्रोधिदः ॥ २९ ॥ रुक्मस्य वृकः पुत्रो वृकाद्वाहुस्तु जज्ञिवान् ।
 शकैर्यवनकांभोजैः पारदैः पण्डुवैः सह ॥ ३० ॥ हैहयास्ताल
 जंघाश्च निरस्यन्ति स्म तं नृपम् । नात्यर्थं धार्मिकस्तात स हि
 धर्मयुगोऽभवत् ॥ ३१ ॥ सगरस्तु सुतो वाहोर्जज्ञे सह गरेण च ।
 और्वस्याश्रममागम्य भार्गवेणाभिरक्षितः ॥ ३२ ॥ आग्नेयमस्त्रं
 लब्ध्वा च भार्गवात् सगरो नृपः । जिगाय पृथिवीं हत्वा ताल-

नामक यज्ञ किया था और सम्राट वह कहलाता था २५ हरिरचन्द्र
 का रोहित नाम वाला वीर्यवान् पुत्र हुआ, उसने इस राज्यकाय
 की सिद्धिके लिये रोहितपुर बसाया था २६ उस राजर्षिने राज्यको
 करके और मजाका पालन करनेके उपरान्त संसारकी असारताको
 जानकर अपना नगर ब्राह्मणोंको दे दिया था २७ रोहितके हरित
 हुआ, हरितका पुत्र चंचु हुआ और चंचुके विजय और सुदेव
 नामक पुत्र हुए २८ उसने सब क्षत्रियोंको जीत लिया था इस लिये
 वह विजय कहलाता था, इसका पुत्र रुक्म हुआ, वह धर्म और
 अर्थमें कुशल था २९ रुक्मका पुत्र वृक हुआ, वृकसे वाहु उत्पन्न
 हुआ, वह राजा उस धर्मयुगमें अतिधार्मिक नहीं था इस लिये
 शक यवन काम्बोज पारद पण्डव हैहय और तालजंघोंने उसको
 उसके राज्य पर अलग कर दिया था ३० ३१ वाहुका जो पुत्र
 उत्पन्न हुआ वह विपमे लिहसा हुआ उत्पन्न हुआ था इससे
 वह सगर कहलाता था और्वके आश्रममें जाने पर सगरने भृगु-
 वंशी और्वसे (अन्नविद्या) को सीख कर तालजंघ और हैहयों

जंवान् सहैहवान् ॥ ३३ ॥ शक्तानां पल्हवानां च धर्मं निरसद-
च्युतः । क्षत्रियाणां कुरुश्रेष्ठ पारदानां स धर्मवित् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

त्रिशंकुचरितकथनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥

जनमेजय उवाच । कथं स सगरो जातो गरेणैव सहाच्युतः ।
किमर्थं च शक्तानां स क्षत्रियाणां महौजसाम् ॥ १ ॥ धर्मं कुलो-
चितं क्रुद्धो राजा निरसदच्युतः । एतन्मे सर्वमाचक्ष्व विस्तरेण
तपोधन ॥ २ ॥ वैशम्पायन उवाच । बाहोर्न्यसनिनस्तात हृतं
राज्यपभूत्किल । हैहयैस्तालजंघीश्च शकैः सार्धं विशाम्पते ॥३॥
यवनाः पारदारश्चैव काम्बोजाः पल्हवाः खसाः । एते ह्यपि गणाः
पञ्च हैहयार्धे पराक्रमन् ॥४॥ हृतराज्यस्तदा राजा स वै बाहु-
र्वनं ययौ । पत्न्या चानुगतो दुःखी स वै माखानवासजत् ॥५॥

को मारकर, पृथ्वीको जीत लिया ॥ ३३ ॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! उस
धनवेत्ता परिपूर्ण शक्ति वालेने शक और पल्हव क्षत्रियोंके
धर्मको भ्रष्ट कर दिया था ॥ ३४ ॥ तेरहवाँ अध्याय समाप्त १३
जनमेजयने कहा, कि-हे तपोधन ! वह राजा विपके साथ
क्यों उत्पन्न हुआ था और विपके साथ उत्पन्न होने पर भी
क्यों नहीं मरा था और उस अच्युत राजाने क्रोधमें भर कर
महाबली शक क्षत्रियोंके कुलोचित धर्मको क्यों दूर किया था
अर्थात् उनको क्षत्रियधर्मसे भ्रष्ट क्यों बना दिया था ॥१॥२॥
वैशम्पायनजीने कहा, कि-हे राजन् ! यमया और ध्रुत तथा
परस्त्रीमें आसक्त रहनेवाले बाहुके राज्यको हैहय तालजंघ और
शकोंने छीन लिया था ॥३॥ यवन पारद काम्बोज पल्हव खसा
इन पाँचोंने भी हैहयोंके लिये पराक्रम किया था ॥४॥ राज्यके
छिन जाने पर राजा बाहु वनको चला गया और उसकी पत्नी
उसके पीछे र गई, इसके अनन्तर उस राजाने दुःखी होकर

पत्नी तु यादवी तस्य सगर्भा पृष्ठतोऽन्वगात् । सपत्न्या च मर-
 स्तस्यै दत्तः पूर्वमभूत् किल ॥ ६ ॥ सा तु भर्तृश्रितां कृत्वा वने
 तामव्यरोहन् । और्वस्तां भार्गवस्तात कारुण्यात् समवारयत् ७
 तस्याश्रमे च तं गर्भं गरेणैव सहाच्युतम् । व्यजायत महाबाहुं
 सगरं नाम पार्थिवम् ॥ ८ ॥ और्वस्तु जातकर्मादि तस्य कृत्वा
 महात्मनः । अध्याप्य वेदशास्त्राणि ततोऽऽनं प्रत्यपादयत् ॥ ९ ॥
 आग्नेयं तु महाघोरमरुररपि दुःसहम् । स तेनास्त्रबलेनाजौ
 बलेन च समन्वितः ॥ १० ॥ हैहयान्निजघानाशु क्रुद्धो रुद्रः
 पशुनिव । आजहार च लोकेषु कीर्तिं कीर्तिमतां वरः ॥ ११ ॥
 ततः शकान् सयवनान् कावोजान् पारदांस्तथा । पत्न्यैर्वाश्चैव
 निःशेषान् कर्तुं व्यवसितस्तदा ॥ १२ ॥ ते वध्यमाना वीरेण
 अपने पाणोंको छोड़ दिया ॥ ५ ॥ उसकी स्त्री यदुवंशकी पुत्री
 थी वह गर्भसे थी, तब भी वह बाहुके पीछे २ गई थी और
 उसको पहिले उसकी सौतने विप दे दिया था ॥ ६ ॥ जब वह
 स्वामीकी चिता बना कर उस पर चढ़ने लगी, उस समय भृगु-
 वंशी और्वने दया आनेके कारण उसको रोका ॥ ७ ॥ और
 उनके आश्रममें ही विग-गर-सहित गर्भमेंसे सगर नामक महाशुभ
 राजाको उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ और्वने उस महात्माके जातकर्म
 आदि संस्कार करके उसको वेद और शास्त्र पढाये फिर उन्होंने
 उसको प्रसाधित सिखाई ॥ ९ ॥ उन्होंने उसको देवताओंको
 भी असह्य महाघोर प्राग्नेय अस्त्र दिया था, जब वह अस्त्रके
 बलसे और (शारीरिक) बलसे सम्पन्न होगया तब उसने
 जोधमें भरकर रुद्र जैसे पशुओंका संहार करते हैं, तैसे हैहयों
 का संहार कर डाला और उस कीर्तिमानोंमें श्रेष्ठ पुरुषने लोको
 में कीर्ति पाई थी ॥ १० ॥ ११ ॥ इसके अनन्तर वह शक यवन
 कावोज पारद और पत्न्योंको निःशेष करने पर फैल पड़ा १२

सगरेण महात्मना । वसिष्ठं शरणं गत्वा प्रणिपेतुर्मनीषिणम्, १३
 वसिष्ठस्त्वथ तान् दृष्ट्वा समयेन महाद्युतिः । सगरं वारयामास
 तेषां दत्त्वाऽभयं तदा ॥ १४ ॥ सगरः स्वां प्रतिज्ञां च गुरोर्वाक्यं
 निशम्य च । धर्मं जघान तेषां वै वेपान्पत्वं चकार ह ॥ १५ ॥
 अर्धं शकानां शिरसो मृण्डं कृत्वा व्यसर्जयत् । यवनानां शिरः
 सर्वं कांभोजानां तथैव च ॥ १६ ॥ पारदा मुक्तकेशाश्च पल्लवाः
 श्मश्रुधारिणः । निःस्वाध्यायवपट्टकाराः कृतास्तेन महात्मना १७
 शका यवनकांभोजाः पारदाश्च विशांपते । कोलिसर्पाः सम-
 हिपा दार्घ्याश्चोलाः सकेरलाः ॥ १८ ॥ सर्वे ते क्षत्रियास्तात धर्म-
 स्तेषां निराकृतः । वसिष्ठवचनाद्राजन् सगरेण महात्मना ॥ १९ ॥
 खसास्तुपारश्वोलांश्च मद्रान्किष्किण्यकांस्तथा । कौतलांश्च तथा

महात्मा सगरके पीटने पर उन्होंने वसिष्ठजीकी शरणमें जाकर
 उनको प्रणाम किया ॥ १३ ॥ महाद्युति वसिष्ठने (शरणागतों
 की रक्षा करनी चाहिये ऐसी शिष्ट मर्यादाको) देखकर उनको
 अभयदान दिया और सगरको रोक दिया ॥ १४ ॥ सगरने
 अपनी प्रतिज्ञा और गुरुके वाक्यकी ओर देखकर उनके धर्मका
 नाश कर दिया ॥ १५ ॥ उसने शकोंके आधे शिरको मुँडकर
 उनको छोड़ दिया, यवनोंके सारे शिरको मुँडवाला और
 काम्भोजोंके भी सारे शिरको मुँडवा दिया और उस महात्माने
 पारदोंके शिरको मुक्तकेश कर दिया और पल्लवोंको डाढ़ीवाले
 बना दिया (और सबको स्वाध्याय और वपट्टकार रहित कर
 दिया ॥ १६ ॥ १७ ॥ हे विशांपते ! शक यवन काम्भोज
 पारद कोलिसर्प महिप दार्घ्य चोल और केरल ये सब क्षत्रिय
 थे इन सबके धर्मको वसिष्ठजीके वचनसे महात्मा सगरने दूर
 कर दिया था ॥ १८ ॥ १९ ॥ उस धर्मविजयी राजाने अश्व-
 मेधकी दीक्षा लेकर खस तुपार चोल मद्र किष्किण्यक कौतल

वद्वान् साल्वान् कौंकणकांस्तथा ॥ २० ॥ स धर्मविजयी राजा
 विजित्येर्षा वसुन्धराम् अश्वं वै प्रेरयामास वाजिमेशाय दीक्षितः २१
 तस्य चारपतः सोऽश्वः समुद्रे पूर्वदक्षिणे । वेत्तासमीपेऽपहृते
 भूमिं चैव प्रवेशितः ॥ २२ ॥ स तं देशं तदा पुत्रीः खानयामास
 पार्थिवः । आसेदुस्ते तनस्तत्र खन्यमाने महार्णवे ॥ २३ ॥ तमादि-
 पुरुषं देवं हरिं कृष्णं प्रजापतिम् । विष्णुं कपिलरूपेण स्वपतं
 पुरुषोत्तमम् ॥ २४ ॥ तस्य चक्षुःसमुत्थेन तेजसा प्रतिबुद्धतः ।
 दग्धास्ते वै महाराज चत्वारस्त्ववशोपिताः ॥ २५ ॥ वह्निकेतुः
 सुकेतुश्च तथा धर्मरथो नृपः । शूरः पञ्चजनश्चैव तस्य वंश-
 करो नृपः ॥ २६ ॥ मादाच्च तस्मै भगवान् हरिर्नारायणो वगान् ।
 अज्ञयं वंशमिच्छाकोः कीर्तिं चाप्यनिवर्तनीम् ॥ २७ ॥ पुत्रं

दांग साल्व और कौंकणकोको जीतकर पृथ्वीका विजय कर
 (अपना) घोडा छोडा ॥ २० ॥ २१ ॥ जब अश्व घुमाया
 जारहा था तब पूर्वदक्षिण (अग्निहोण) में समुद्रके किनारेकी
 भूमिमें किसीने घोड़ेको हरकर भूमिमें छिपा दिया ॥ २२ ॥ उस
 समय राजाने अपने पुत्रोंसे उस स्थानको खुदवाया, समुद्रके
 खोदने पर उसके पुत्रोंने आदिपुरुष (प्रकृतिके प्रवर्तक) हरि
 (अविद्याके कार्यको हरने वाले) कृष्ण प्रजापति (सदानन्दरूप
 प्रजाके पति) पुरुषोत्तम (अन्तर्यामी) कपिलरूपी विष्णुको
 सोते हुए अर्थात् समाधिमें स्थित देखा ॥ २३ ॥ २४ ॥ उनके
 योग निद्राको त्यागने पर उनके नेत्रोंसे निकलते हुए तेजसे वे
 सब (राजकुमार) भस्म होगए, केवल चार ही बाकी रहगए
 (उनके नाम यह हैं) वह्निकेतु सुकेतु तथा राजा धर्मरथ और
 वंशको चलानेवाला शूर पञ्चजन ॥ २६ ॥ तब हरि नारायण
 भगवान्ने वर दिया, कि-इच्छाकुका वंश अज्ञय रहे और तेरी
 कीर्ति कभी नष्ट न हो ॥ २७ ॥ और समुद्र तेरा पुत्र बन जाय

समुद्रं च विभुः स्वर्गवासं तथाऽन्तयम् । पुत्राणां चाक्षयान्त्वो-
कांस्तस्य ये चक्षुषा हताः ॥ २८ ॥ समुद्ररचार्यमादाय ववन्दे तं
महीपतिम् । सागरत्वं च लेभे स कर्मणा तेन तस्य वै ॥ २९ ॥
तं चाश्वमेधिकं सोऽश्वं समुद्रादुपलब्धवान् । आजहाराश्वमेजानां
शतं स सुमहायशाः । पुत्राणां च सहस्राणि पष्टिस्तस्येति नः
श्रुतम् ॥ ३० ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो हरिवंशपर्वाणि

सगरोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

जनमेजय उवाच । सगरस्यात्मजा वीराः कथं जाता महा-
त्मनः । विक्रान्ताः पष्टिसाहस्रा विधिना केन वा द्विज ॥ १ ॥
वैशम्पायन उवाच द्वे भार्ये सगरस्यास्तां तपसा दग्धकिन्विवे ।
ज्येष्ठा विदर्भदुहिता केशिनी नाम विश्रुता ॥ २ ॥ कनीयसी तु
या तस्य पत्नी परमधर्मिणी । अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणामतिमा भुवि ३

तथा तुम्हे अक्षय स्वर्गवास मिलेगा और जो पुत्र उनके
नेत्रोंसे भस्म होगए थे उनको अक्षय लोक दिये ॥२८॥ (उस
समय) समुद्रने अर्थ लेकर उस राजाको प्रणाम किया और
राजा सगरके इस कर्मके कारण समुद्रका सागर नाम पढ़
गया ॥ २९ ॥ फिर उसको अश्वमेजका घोड़ा समुद्रमेंसे मिला-
गया, हमने सुना है, कि उस राजाने सौ अश्वमेज यज्ञ किये थे
और उसके साठ सहस्र पुत्र थे ॥३०॥ चौदहवाँ अध्याय समाप्त
। जनमेजयने कहा, कि-हे द्विज ! महात्मा सगरके साठ सहस्र
पराक्रमी पुत्र कैसे उत्पन्न हुए और कौनसी विधिसे उत्पन्न हुए
थे ॥ १ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-सगरकी दो रानियें थीं,
तपसे उनके पाप नष्ट होगए थे उनमें बड़ी विदर्भकी पुत्री थी
और वह केशिनी नामसे प्रसिद्ध थी २ और उसकी छोटी रानी
परम धार्मिका थी वह अरिष्ट नेमिकी पुत्री थी, वह पृथ्वीमें अनु-

और्वस्ताभ्यां वरं प्रादात्तन्निबोध जनाधिप । पट्टिं पुत्रसहस्राणि
 गृह्णात्वेका तपस्विनी ॥४॥ एकं वंशधरं त्वेका यथेष्टं वरयत्विति ।
 तत्रैका जगृहे पुत्रोऽल्लुब्धा शूरान् वहूस्तथा ॥ ५ ॥ एक वंशधरं
 त्वेका तथेत्याह च तर्हि मुनिः । केशिन्यसूत सगरादसमञ्जसमात्म-
 जम् ॥ ६ ॥-राजा पञ्चजनो नाम बभूव सुमहायलः । इतरा
 सुपुत्रे तुम्बीं वीजपूर्णाभिति श्रुतिः ॥ ७ ॥ तत्र पट्टिसहस्राणि
 गर्भास्ते तिलसम्पिताः । संवभूर्बुर्यथा कालं वष्टुश्च यथाक्रमम्
 घृतपूर्णेणु कुम्भेषु तान् गर्भान्निदधे पिता । धात्रीश्चैकैकशः
 प्रादात्तावतीरेव पोषणे ॥६॥ ततो दशसु मासेषु समुत्तस्थुर्यथा-
 सुखम् । कुमारस्ते यथाकालं सगरप्रीतिवर्धनाः ॥ १० ॥ पट्टिः
 पुत्रसहस्राणि तथैवमभवंन्पुत्र । गर्भादलावुमध्याद्द्वै जातानि
 पम रूपवती थी ॥ ३ ॥ हे जनाधिप ! और्वने उन दोनोंको जो
 वर दिया था उसको तुम सुनो, (उन्होंने कहा, कि-) एक तपस्विनी
 साठ सहस्र पुत्र माँगले और एक वंशधर एक पुत्रको माँगले तब
 उनमेंसे एक लोभिनीने शूरवीर बहुतसे पुत्रोंको माँग लिया
 और एकने एक वंशधर पुत्रको माँग लिया, तब मुनिने तथास्तु
 कह दिया, तब केशिनीने सगरसे असमंजस नामक पुत्रको
 उत्पन्न किया ॥ ६ ॥ वह पञ्चजन नामक महायलवान् राजा
 हुआ, दूसरीने वीजोंसे भरीहुई एक तोम्बीको उत्पन्न किया,
 यह धात प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ उसमें तिलकी समान साठ सहस्र
 गर्भ थे वे समय आने पर उत्पन्न हुए और बढ़ने लगे ॥ ८ ॥
 पिताने उन गर्भोंको घृतसे भरे हुए कुम्भोंमें डाल दिया और
 उनका पोषण करनेके लिये सतनी ही धाइयोंको रख दिया ॥ ९ ॥
 तब दश महीने बीतने पर उनमेंसे सगरकी प्रीतिको बढ़ानेवाले
 कुमार सुखपूर्वक समयानुसार उत्पन्न होने लगे ॥ १० ॥
 हे राजन् ! इसप्रकार सगरके साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे

पृथिवीपते ॥११॥ तेषां नारायणं तेजः प्रविष्टानां महात्मनाम् ।
 एकः पञ्चजनो नाम पुत्रो राजा बभूव ह ॥ १२ ॥ सुतः पञ्च-
 जनस्यासीदंशुमान्नाम वीर्यवान् । दिलीपस्तनयस्तस्य खट्वांग
 इति विश्रुतः ॥ १३ ॥ येन स्वर्गादिहागत्य मुहूर्तं माप्य जीवि-
 तम् । त्रयोऽनुसन्धिता लोका बुद्ध्या सत्येन धानय ॥ १४ ॥
 दिलीपस्य तु दायादो महाराजो भगीरथः । यः स गंगां सन्नि-
 च्छेष्टामवतारयत प्रभुः ॥ १५ ॥ कीर्तिमान् स महाभागः शक-
 तुल्पपराक्रमः । समुद्रमानयच्चैनां दुहितृत्वेन कल्पयत् । तस्मा-
 द्भागीरथी गंगां कथ्यते वंशचिन्तकैः ॥ १६ ॥ भागीरथसुतो
 राजा श्रुत इत्यभिविश्रुतः । नाभागस्तु श्रुतस्यासीत् पुनः परम-
 धार्मिकः ॥१७॥ अम्बरीपस्तु नाभागिः सिन्धुद्वीपपिताऽभवत् ।

और हे पृथिवीपते! वे तोम्बीके मध्यमें गर्भसे उत्पन्न हुए थे ११
 जिनमें नारायणका तेज व्याप्त हो रहा है ऐसे राजकुमारोंमें एक
 पञ्चजन नामक पुत्र राजा हुआ ॥ १२ ॥ पञ्चजनका पुत्र वीर्य-
 वान् अंशुमान् हुआ, उसका पुत्र खट्वांग हुआ वह दिलीप नाम
 से (भी) प्रसिद्ध है ॥ १३ ॥ उसने स्वर्गसे यहाँ आकर मुहूर्त
 भरका जीवन पाकर सूक्ष्मबुद्धिसे (सत्य) ब्रह्मभावके द्वारा तीनों
 लोकोंको तत्त्वतः जान लिया था अर्थात् उसने मुहूर्त भरमें चित्त
 की एकाग्रताका सम्पादन कर "सर्वं खन्विदं ब्रह्म-यह सब
 ब्रह्म है" यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था ॥ १४ ॥ दिलीपके महा-
 राज भगीरथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, उस प्रभुने नदियोंमें श्रेष्ठ
 गंगाजीकी (स्वर्गमेंसे भूमि पर) उतारा था १५ इन्द्रकी समान
 पराक्रमी वह कीर्तिमान् महापुरुष गङ्गाजीको समुद्र तक ले गया
 और उसने गङ्गाजीको अपनी पुत्री समझा था इस लिये वंशों
 का विचार करने वाले गङ्गाजीको भागीरथी कहते हैं ॥ १६ ॥
 भगीरथ पुत्र श्रुत प्रसिद्ध है, श्रुतका पुत्र परमधार्मिक था, उसका

अयुताजित् दायदः सिन्धुद्वीपस्य वीर्यवान् ॥ १८ ॥ अयुताजित्
सुतस्त्वासीद्वृत्तपर्णो महायशः । दिव्यान्नहृदयज्ञो वै राजा नल-
सखो बली ॥ १९ ॥ अतपर्णसुतस्त्वासीदार्तपर्णिर्महीपतिः ।
सुदासस्तस्य तनयो राजा त्विन्द्रसखोऽभवत् ॥ २० ॥ सुदासस्य
सुतस्त्वासीत् साँदासो नाम पार्थिवः । त्व्यातः कल्मापपादो वै
नाम्नामित्रसहस्तथा ॥ २१ ॥ कल्मापपादस्य सुतः सर्वकर्मति-
विश्रुतः । अनरण्यस्तु पुत्रोऽभूद्विश्रुतः सर्वकर्मणः ॥ २२ ॥ अन-
रण्यसुतो निघ्नो निघ्नपुत्रो बभूवतुः । अनमित्रो रघुश्चैव पार्थि-
वर्षभसत्तमौ ॥ २३ ॥ अनमित्रस्य धर्मात्मा विद्वान्दुल्लिदुहोऽभवत् ।
दिलीपस्तनयस्तस्य रामस्य प्रपितामहः ॥ २४ ॥ दीर्घबाहुर्दिली-
पस्य रघुर्नाम्नाऽभवत् सुतः । अयोध्यायां महाराजो रघुश्चासी-
न्महाबलः ॥ २५ ॥ अजस्तु रघुतो जज्ञे अजादशरथोऽभवत् ।
नाम नाभाग था ॥ १७ ॥ नाभागका पुत्र अम्बरीष हुआ वह
सिन्धुद्वीपका पिता था, सिन्धुद्वीपके अयुताजित् नामक वीर्यवान्
पुत्र हुआ ॥ १८ ॥ अयुताजित्के अतपर्ण नामक महायशस्वी
पुत्र हुआ, वह दिव्य द्यूतविद्याको जानता था और वह बली
राजा-नलका मित्र था ॥ १९ ॥ अतपर्णका पुत्र राजा, आर्तपर्णि
हुआ, उसका पुत्र सुदास हुआ वह राजा इन्द्रका मित्र था ॥ २० ॥
सुदासका पुत्र साँदास नामक रामा था, वह कल्मापपाद और
अमित्रसह नामसे भी प्रसिद्ध था ॥ २१ ॥ कल्मापपादका पुत्र
सर्वकर्मा नामसे प्रसिद्ध था, सर्वरुर्माका अनरण्य नामक प्रसिद्ध
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २२ ॥ अनरण्यका पुत्र निघ्न था निघ्नके
अनमित्र और रघु नामक पुत्र उत्पन्न हुए वे राजाओंमें श्रेष्ठ माने
जाने थे ॥ २३ ॥ अनमित्रके विद्वान् दुल्लिदुह नामक पुत्र हुआ,
उसके दिलीप नामक पुत्र हुए, वे रामके प्रपितामह थे ॥ २४ ॥
दिलीपके रघु नामक महायुग पुत्र उत्पन्न हुआ, वह रघु अयोध्या

रागो दशरथाञ्जज्ञे धर्मात्मा सुमहायशाः ॥ २६ ॥ रामस्य तनयो
जज्ञे कुश इत्यभिविश्रुतः । अतिथिस्तु कुशाञ्जज्ञे निपथस्तस्य
चात्मजः ॥ २७ ॥ निपथस्य नलः पुत्रो नभः पुत्रो नलस्य तु ।
नभस्य पुण्डरीकस्तु ज्योमधन्वा ततः स्मृतः ॥ २८ ॥ ज्योमधन्व-
स्तुतस्त्वासीदेवानीकः प्रतापवान् । आसीदहीनशुर्नाम देवानीक-
स्तुतः प्रभुः ॥ २९ ॥ अहीनगोः सुदायादः सुधन्वा नाम पार्थिवः ।
सुधन्वनः सुतश्चैव तगो जज्ञेऽनलो नभः ॥ ३० ॥ उक्थो नाम स
धर्मात्माऽनलपुत्रो बभूव ह्यवजनाभः सुतस्तस्य उक्थस्य च महा-
त्मनः ३१ शंखस्तस्य सुतो विद्वान् व्युपिताश्व इति श्रुतः । पुण्यस्तस्य
सुतो विद्वानर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः ३२ सुदर्शनः सुतस्तस्य अग्निवर्णः
सुदर्शनात् । अग्निवर्णस्य शीघ्रस्तु शीघ्रस्य तु मरुः सुतः ॥ ३३ ॥

में महावलीमें राजा हुए थे ॥ २५ ॥ रघुके अज नामक पुत्र हुआ
अजके दशरथ हुए और दशरथसे धर्मात्मा और महायशस्वी
रामचन्द्र हुए ॥ २६ ॥ रामके कुश नामसे प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न
हुआ, कुशसे अतिथि नामक पुत्र हुआ, उसके पुत्रका नाम निपथ
हुआ ॥ २७ ॥ निपथके नल हुआ और नलके नभ नामक पुत्र
हुआ, नभके पुण्डरीक हुआ उसका पुत्र ज्योमधन्वा कहलाता है २८
ज्योमधन्वाके देवानीक नामक प्रतापी पुत्र हुआ, देवानीकके अहीनगु
नामक व्यापक पुत्र हुआ ॥ २९ ॥ अहीनगुके सुधन्वा नामक
राजा हुआ, सुधन्वाके अनल नामक पुत्र हुआ, अनलके उक्थ
नामक धर्मात्मा पुत्र हुआ, महात्मा उक्थके वज्र नामक पुत्र
हुआ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ उसके शंख नामक विद्वान् पुत्र हुआ, वह
व्युपिताश्व नामसे भी प्रसिद्ध है, उसका पुत्र पुण्य हुआ, उसके
अर्थसिद्धि नामक विद्वान् पुत्र हुआ ॥ ३२ ॥ उसके सुदर्शन पुत्र
हुआ, सुदर्शनसे अग्निवर्ण हुआ अग्निवर्णके शीघ्र हुआ और
शीघ्रके मरु नामक पुत्र हुआ, मरु योगको धारण कर कलापद्वीपमें

अयुताजित् दायदः सिन्धुद्वीपस्य वीर्यवान् ॥ १८ ॥ अयुताजित्
 सुतस्त्वासीद्वत्पर्णो महायशः । दिव्यान्नहृदयज्ञो वै राजा नल-
 सखो बली ॥ १९ ॥ ऋतपर्णसुतस्त्वासीदार्तपर्णिर्महीपतिः ।
 सुदासस्तस्य तनयो राजा त्विन्द्रसखोऽभवत् ॥ २० ॥ सुदासस्य
 सुतस्त्वासीत् सौदासो नाम पार्थिवः । ख्यातः कल्मापपादो वै
 नाम्नामित्रसहस्तथा ॥ २१ ॥ कल्मापपादस्य सुतः सर्वकर्मति-
 विश्रुतः । अनरण्यस्तु पुत्रोऽभूद्विश्रुतः सर्वकर्मणः ॥ २२ ॥ अन-
 रण्यसुतो निघ्नो निघ्नपुत्रो बभूवतुः । अनमित्रो रघुरचैव पार्थि-
 वर्षभसत्तमौ ॥ २३ ॥ अनमित्रस्य धर्मात्मा विद्वान्दुलिदुहोऽभवत् ।
 दिलीपस्तनयस्तस्य रामस्य प्रपितामहः ॥ २४ ॥ दीर्घबाहुर्दिली-
 पस्य रघुर्नाम्नाऽभवत् सुतः । अयोध्यायां महाराजो रघुश्चासी-
 न्महाबलः ॥ २५ ॥ अजस्तु रघुतो जज्ञे अजादशरथोऽभवत् ।
 नाम नाभाग था ॥ १७ ॥ नाभागका पुत्र अम्बरीष हुआ वह
 सिन्धुद्वीपका पिता था, सिन्धुद्वीपके अयुताजित् नामक वीर्यवान्
 पुत्र हुआ ॥ १८ ॥ अयुताजित्के ऋतपर्ण नामक महायशस्वी
 पुत्र हुआ, वह दिव्य द्यूतविद्याको जानता था और वह बली
 राजा नलका मित्र था ॥ १९ ॥ ऋतपर्णका पुत्र राजा, आर्तपर्णि
 हुआ, उसका पुत्र सुदास हुआ वह राजा इन्द्रका मित्र था ॥ २० ॥
 सुदासका पुत्र सौदास नामक राजा था, वह कल्मापपाद और
 अमित्रसह नामसे भी प्रसिद्ध था ॥ २१ ॥ कल्मापपादका पुत्र
 सर्वकर्मा नामसे प्रसिद्ध था, सर्वकर्माका अनरण्य नामक प्रसिद्ध
 पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २२ ॥ अनरण्यका पुत्र निघ्न था निघ्नके
 अनमित्र और रघु नामक पुत्र उत्पन्न हुए वे राजाओंमें श्रेष्ठ माने
 जाते थे ॥ २३ ॥ अनमित्रके विद्वान् दुलिदुह नामक पुत्र हुआ,
 उसके दिलीप नामक पुत्र हुए, वे रामके प्रपितामह थे ॥ २४ ॥
 दिलीपके रघु नामक महायुज पुत्र उत्पन्न हुआ, वह रघु अयोध्या

रामो दशरथाञ्जज्ञे धर्मात्मा सुमहायशाः ॥ २६ ॥ रामस्य तनयो
जज्ञे कुश इत्यभिविश्रुतः । अतिथिस्तु कुशाञ्जज्ञे निपथस्तस्य
चात्मजः ॥ २७ ॥ निपथस्य नलः पुत्रो नभः पुनो नलस्य तु ।
नभस्य पुण्डरीकस्तु क्षेमधन्वा ततः स्मृतः ॥ २८ ॥ क्षेमधन्व-
स्तुतस्त्वासीद्देवानोरुः प्रतापवान् । आसीदहीनगुर्नाम देवानोरु-
स्तुतः प्रभुः ॥ २९ ॥ अहीनगोः सुदामादः सुधन्वा नाम पार्थिवः ।
सुधन्वनः सुतरचेव ततो जज्ञेऽनलो नृपः ॥ ३० ॥ उक्थो नाम स
धर्मात्माऽनलपुत्रो बभूव हावज्रनाभः सुतस्तस्य उक्थस्य च महा-
त्मनः ३१ शंखस्तस्य सुतो विद्वान् व्युपिताश्व इति श्रुतः ॥ पुण्ड्रस्तस्य
सुतो विद्वानर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः ३२ सुदर्शनः सुतस्तस्य अग्निवर्णः
सुदर्शनात् । अग्निवर्णस्य शीघ्रस्तु शीघ्रस्य तु मरुः सुतः ॥ ३३ ॥

मैं महाबलीमें राजा हुए ये ॥ २५ ॥ रघुके अज नामक पुत्र हुआ
अजके दशरथ हुए और दशरथसे धर्मात्मा और महायशस्वी
रामचन्द्र हुए ॥ २६ ॥ रामके कुश नामसे प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न
हुआ, कुशसे अतिथि नामक पुत्र हुआ, उसके पुत्रका नाम निपथ
हुआ ॥ २७ ॥ निपथके नल हुआ और नलके नभ नामक पुत्र
हुआ, नभके पुण्डरीक हुआ उसका पुत्र क्षेमधन्वा बहलाता है २८
क्षेमधन्वाके देवानोरु नामक भतापी पुत्र हुआ, देवानोरुके अहीनगु
नामक व्यापक पुत्र हुआ ॥ २९ ॥ अहीनगुके सुधन्वा नामक
राजा हुआ, सुधन्वाके अनल नामक पुत्र हुआ, अनलके उक्थ
नामक धर्मात्मा पुत्र हुआ, महात्मा उक्थके वज्र नामक पुत्र
हुआ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ उसके शंख नामक विद्वान् पुत्र हुआ, वह
व्युपिताश्व नामसे भी प्रसिद्ध है, उसका पुत्र पुण्ड्र हुआ, उसके
अर्थसिद्धि नामक विद्वान् पुत्र हुआ ॥ ३२ ॥ उसके सुदर्शन पुत्र
हुआ, सुदर्शनसे अग्निवर्ण हुआ अग्निवर्णके शीघ्र हुआ और
शीघ्रके मरु नामक पुत्र हुआ, मरु योगको धारण कर कलापद्वीपमें

मरुस्तु योगमास्थाय कलापद्वीपमास्थितः । तस्यासीद्विश्रुतवतः
पुत्रो राजा बृहद्वलः ॥ ३४ ॥ नलौ द्वावेव विख्यातौ पुराणे
भरतर्षभ । वीरसेनात्मजश्चैव यश्चेत्त्वाकुकुलोद्बहः ॥ ३५ ॥
इत्त्वाकुवंशमभवः प्राधान्येनेह कीर्तिताः । एते विवस्वतो वंशे
राजानो भूरितेजसः ॥ ३६ ॥ पठन् सम्पगिमां सृष्टिमादित्यस्य
विवस्वतः । श्राद्धदेवस्य देवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च ॥ ३७ ॥
प्रजावानेति सायुज्यमादित्यस्य विवस्वतः । विपाप्मा विरजाश्चैव
आयुष्माश्च भवत्युत ॥ ३८ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि आदित्यस्य
वंशानुकीर्तनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

जनमेजय उवाच । कथं वै श्राद्धदेवत्वगादित्यस्य विवस्वतः ।
श्रोतुमिच्छामि विप्राऽय श्राद्धस्य च परं विधिम् ॥ १ ॥ पितृणा-
मादिसर्गं च क एते पितरः स्मृताः । एवं च श्रुतमस्माभिः कथ्य-

रहते हैं उस शास्त्रज्ञ राजाके बृहद्वल नामक पुत्र हुआ ॥ ३४ ॥
हे भरतर्षभ ! पुराणमें दो ही नल कहे हैं, एक वीरसेनका पुत्र
और दूसरा इत्त्वाकुकुलोत्पन्न ॥ ३५ ॥ इस समय इत्त्वाकुवंशमें
उत्पन्न हुए मुख्य २ राजाओंका वर्णन कर दिया, ये महातेजस्वी
राजे विवस्वान्के वंशमें उत्पन्न हुए हैं ३६ जो आदित्य विवस्वान्
प्रजाको पुष्टि देने वाले श्राद्धदेवकी इस सृष्टिको भली प्रकार
पढ़ता है वह सन्तानवान् होता है बड़ी आयु वाला होता है और
रागसे छूट पापरहित हो आदित्य सूर्यकी सायुज्यताको पाता
है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ पञ्चदश अध्याय समाप्त ॥ १५ ॥

जनमेजयने कहा, कि-हे विप्रश्रेष्ठ ! विवस्वान् आदित्य श्राद्ध-
देव क्यों कहलाते हैं और ये श्राद्धकी मुख्यविधिको भी सुनना
चाहता हैं ॥ १ ॥ और पितरोंकी आदि-सृष्टिको भी सुनना
चाहता हैं, जो पितर कहलाते हैं वे कौन हैं ? यह बात हमने

मानं द्विजातिभिः ॥ २ ॥ स्वर्गस्थाः पितरो ये च देवानामपि
 देवताः । इति वेदविदः प्राहुरेनदिच्छामि वेदितुम् ॥ ३ ॥ ये च
 तेषां गणाः प्रोक्ता यच्च तेषां ब्रह्म परम् । यथा च कृत-
 मस्माभिः श्राद्धं प्रीणाति वै पितॄन् ॥ ४ ॥ प्रीतारच पितरो
 ये स्म श्रेयसा योजयन्ति हि । एवं वेदितुमिच्छामि पितॄणां सर्ग-
 मुत्तमम् ॥ ५ ॥ वैशम्पायन उवाच । हन्व ते कथयिष्यामि पितॄणां
 सर्गमुत्तमम् । यथा च कृतमस्माभिः श्राद्धं प्रीणाति वै पितॄन् ।
 प्रीताश्च पितरो ये स्म श्रेयसा योजयन्ति हि ॥ ६ ॥ मार्कण्डेयेन
 कथितं भीष्माय परिपृच्छतेऽपृच्छधर्मराजो हि शरतव्यगतं पुरा ।
 इममेव पुरा प्रश्नं यन्मां त्वं परिपृच्छसिऽतत्तेऽनुपूर्व्या वक्ष्यामि
 भीष्मेणोदाहृतं यथा । गीतं सनत्कुमारेण मार्कण्डेयाय पृच्छतेऽ-

ब्राह्मणोंसे सुनी है ॥२॥ वेदवेत्ता कहते हैं, कि-“स्वर्गमें स्थित
 पितर देवताओंके भी देवता हैं ।” अतः मैं इस बातको जानना
 चाहता हूँ ॥ ३ ॥ उनके जो गण कहे हैं और उनका जो परम
 बल है और हमारा किया हुआ श्राद्धकर्म उनको किसप्रकार प्रसन्न
 कर सकता है? ॥४॥ और पितर प्रसन्न होकर मनुष्योंका जिस
 प्रकार कल्याण करने है? इस प्रकार पितरोंकी सब बातोंको मैं
 सुनना चाहता हूँ ॥ ५ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-मैं तुझसे
 पितरोंके उत्तम सर्गको कहना हूँ, पितर प्रसन्न होकर जिस प्रकार
 हमारा कल्याण करते हैं उसको और हमारा किया हुआ श्राद्ध
 पितरोंको किस प्रकार तृप्त करता है, इन सब बातोंको भीष्मजी
 के ब्रूह्मने पर मार्कण्डेयजीने उनसे कहा था और तू मुझसे जिस
 प्रश्नको ब्रूह्म रहा है इस प्रश्नको धर्मराजने भी शरशय्यामें सोते
 हुए भीष्मजीसे ब्रूह्म था ॥ ६ ॥ ७ ॥ उस सब बातको मैं
 तुझसे भीष्मजीके कथनानुसार और मार्कण्डेयके ब्रूह्मनेपर
 सनत्कुमारने भी जिस प्रकार कहा था, उस प्रकार क्रमानुसार

युधिष्ठिर उवाच । पुष्टिकामेन धर्मज्ञ कथं पुष्टिरवाप्यते । एतद्वै
श्रोतुमिच्छामि किं कुर्वाणो न शोचति ॥ ९ ॥ भीष्म उवाच ।
श्राद्धैः प्रीणाति हि पितृन् सर्वाकामफलैस्तु यः । तत्परः प्रयतः
श्राद्धी प्रेत्य चेह च मोदते ॥ १० ॥ पितरो धर्मकामस्य प्रजा-
कामस्य च प्रजाम् । पुष्टिकामस्य पुष्टिं च प्रयच्छन्ति युधिष्ठिर ११
युधिष्ठिर उवाच । वर्तन्ते पितरः स्वर्गे केषांचिन्नरके पुनः ।
प्राणिनां नियतं कृतं कर्मजं फलमुच्यते ॥ १२ ॥ श्राद्धानि चैव
कुर्वन्ति फलकामाः सदा नराः । अभिसन्वार्य पितरं पितृश्च
पितरं तथा ॥ १३ ॥ पितुः पितामहं चैव त्रिषु पिण्डेषु नित्यशः ।
तानि श्राद्धानि दत्तानि कथं गच्छन्ति वै पितृन् ॥ १४ ॥ कथं
च शक्तास्ते दातुं नरकस्थाः कथं पुनः । के वा ते पितरान् ये स्म

कहता हैं ॥ ८ ॥ युधिष्ठिरने कहा, कि-पुष्टि चाहना वाला पुरुष
किस प्रकार पुष्टि पासकता है, और किस कर्मको करनेसे पनुष्य
को शोक नहीं करना पड़ता है ? इन बातोंको मैं सुनना चाहता
हूँ ॥ ९ ॥ भीष्मजीने कहा, कि-जो सब कामनाओंका फल
देने वाले श्राद्ध करके पितरोंको तृप्त करता है, वह पितरोंकी प्रीति
को पानेमें लगा हुआ श्राद्धकर्ता इस संसारमें आनन्द करता है
और मरनेके अनन्तर परलोकमें आनन्द करता है ॥ १० ॥
पितर धर्म चाहने वालेसे धर्म, प्रजा चाहने वालेको प्रजा और
हे युधिष्ठिर ! पुष्टि चाहने वालेसे पुष्टि देते हैं ॥ ११ ॥ युधिष्ठिरने
कहा, कि-किन्हींके पितर स्वर्गमें रहते हैं और किन्हींके पितर
नरकमें रहते हैं, क्योंकि-यह बात प्रसिद्ध है; कि-प्राणियोंके
कर्मोंसे उत्पन्न होने वाला फल अवश्य भोगना पड़ता है ॥ १२ ॥
फलसे चाहने वाले पुरुष सदा श्राद्ध करते हैं, पिता पितामह
और प्रपितामहको लक्ष्य करके तीनों पिण्डोंमें किया हुआ श्राद्ध
पितरोंको कैसे पहुँचता है? ॥ १३-१४ ॥ और वे (जन) नरकमें

कान् यजामो वयं पुनः ॥१५॥ देवा अपि पितृन् स्वर्गं यजंतीति
 च नः श्रुतम् । एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण महाश्रुते ॥ १६ ॥
 स भवान् कथयस्वेतां कथाममितबुद्धिमान् । यथा दत्तं पितृणां
 वै तारणायेह कल्पते ॥ १७ ॥ भीष्म उवाच । अत्र ते कीर्त-
 यिष्यामि यथा श्रुतमरिन्दम । ये च ते पितरोऽन्ये स्म यांन् यजामो
 वयं पुनः । पित्रा मम पुरा गीतं लोकान्तरगतेन वै ॥ १८ ॥
 श्राद्धकाले मम पितुर्मया पिण्डः समुद्यतः । तं पिता मम हस्तेन
 भित्वा भूमिमचायत ॥ १९ ॥ हस्ताभरणपूर्णेन केयूराभरणेन
 च । रक्तांगुलितलेनाथ यथा दृष्टः पुरा मया ॥ २० ॥ नैप कल्पे
 विधिर्दृष्ट इति संचिन्त्य चाप्यहम् । कुशोन्वेव ततः पिण्डं दत्त-
 वानविचारयन् ॥ २१ ॥ ततः पिता मे सुमीतो वाचा मधुरया

होते होंगे तब वे पितर फल किस प्रकार देसकते होंगे ? क्या वे
 पितर कोई और होते हैं ? हम इनमेंसे किसकी पूजा करें ? १५।
 हमने सुना है, कि-देवता स्वर्गमें भी पितरोंकी पूजा करते हैं,
 हे महाश्रुते ! इन सब बातोंको मैं विस्तारपूर्वकः सुनना चाहता
 हूँ ॥ १६ ॥ पितरोंको जिस प्रकार देनेसे (पिण्ड) तार सकता
 हो उस कथाको आप कहिये; क्योंकि-आप अमितबुद्धि हैं ॥ १७।
 भीष्मजीने कहा, कि-हे अरिन्दमन ! इस विषयमें मैंने जो कुछ
 सुना है, उसको मैं तुमसे कहता हूँ; जिन पितरोंको हम पूजन
 करते हैं, उनके विषयमें परलोकगत अपने पितासे मेरी बातचीत
 हुई थी ॥ १८ ॥ श्राद्धके दिनोंमें मैं अपने पिताको पिण्ड देने
 लगा, तो भूमिको फोड़ कर उनका हाथ निकल आया और वह
 मुझसे पिण्ड माँगने लगा ॥ १९ ॥ मैंने अपने पिताका हस्ताभरण
 और वाजूवन्द वाला और लाल २ अंगुलियों वाला जैसा हाथ
 देखा था, उनका वह हाथ वैसा ही था ॥ २० ॥ उस समय मैंने
 विचारा, कि-(बीषायन आदि कल्प)ग्रन्थोंमें तो मैंने ऐसी विधि

तदा । उवाच भग्नश्रेष्ठ प्रीयमाणो मयाऽनघा ॥ २२ ॥ त्वया दायाद-
वानस्मि, कृतार्थोऽमुत्र चेह च । सत्पुत्रेण त्वया पुत्र धर्मज्ञेन
विपश्चिता ॥ २३ ॥ मया तु तव जिज्ञासा प्रयुक्तैषा दृढव्रत ।
व्यवस्थानं तु धर्मेषु कर्तुं लोकस्य चानघ ॥ २४ ॥ यथा चतुर्थ
धर्मस्य रक्षिता लभते फलम् । पापस्य हि तथा मूढः फलं प्राप्नोत्य-
रक्षिता ॥ २५ ॥ प्रमाणं यद्वि कुरुते धर्माचारेषु पार्थिवः ।
प्रजास्तदनुवर्तन्ते प्रमाणाचरितं सदा ॥ २६ ॥ त्वया च भरत-
श्रेष्ठ वेदधर्माश्च शास्वताः । कृताः प्रमाणं प्रीतिश्च मम निर्वर्ति-
तातुला ॥ २७ ॥ तस्मात्तवाहं सुप्रीतः प्रीत्या च वरमुत्तमम् ।
ददामि तं प्रतीच्छ त्वं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् ॥ २८ ॥ न ते प्रभो-

कहीं नहीं देखी है यह विचार कर मैंने बिना विचारे ही
पिएडको कुशों पर ही धर दिया ॥ २१ ॥ हे निष्पाप !
भरतश्रेष्ठ ! तव मेरे पिता प्रसन्न होकर प्रेमभरी मधुर
वाणीमें मुझसे कहने लगे ॥ २२ ॥ कि तुम्ह धर्मज्ञ विद्वान्
सत्पुत्रसे आज मैं पुत्रवान् हूँ, मैं यहाँ और परलोकमें तेरे कारण
कृतार्थ होगया हूँ ॥ २३ ॥ हे दृढव्रत ! मैंने यह तेरी परीक्षा ली
थी, और हे अनघा मैंने लोकोंको धर्ममें स्थापन करनेके लिये यह
सब किया था ॥ २४ ॥ धर्मकी रक्षा करने वालेको जैसे धर्मका
चौथाई फल मिलता है, इसी प्रकार धर्मकी रक्षा न करने वाला
मूढ़ मनुष्य भी पापके चौथाई फलको भोगता है ॥ २५ ॥ राजा
धर्मविषयक आचारमें जिस बातको प्रामाणिक बता देता है, राजा
के बताए हुए प्रामाणिक उस आचारणका प्रजा अनुकरण करती
है ॥ २६ ॥ हे भरतश्रेष्ठ ! तूने सनातन धर्म वेद और शास्त्रोंको
प्रमाण मान लिया, इस बातसे तूने मुझे परम प्रसन्न कर लिया
है ॥ २७ ॥ इस लिये मैं तेरे ऊपर परमप्रसन्न होकर तुम्हको
श्रेष्ठ वर देना चाहता हूँ, अतः तू तीनों लोकोंमें दुर्लभ वरको

भविता मृत्युर्वाचिञ्जीवितुमिच्छसि । त्वचोऽभ्यनुज्ञां संप्राप्य मृत्युः
 प्रभविता तव ॥ २६ ॥ किं वा ते प्रार्थितं भूयो ददामि वरमुत्त-
 मम् । तद् ब्रूहि भरतश्रेष्ठ यत्ते मनसि वर्तते ॥ २७ ॥ इत्युक्त
 वन्नन्तमहमभिवाद्य कृताञ्जलिः । अमुवं कृतकृत्योऽहं प्रसन्ने
 त्वयि सत्तम ॥ २१ ॥ यदि त्वनुग्रह भूयस्त्वचोऽर्हामि मदाद्युते ।
 मश्नमिच्छामि वै किञ्चिद्वाहितं भवता स्वयम् ॥ २२ ॥ स मा-
 मुवाच धर्मात्मा ब्रूहि भीष्म यदिच्छसि । ह्येतास्मि संशयं सर्वं
 यन्मां पृच्छसि भारत ॥ २३ ॥ अपृच्छं तमहं तातं तत्रान्तर्हित-
 मेव च । गतं सुकृतिनां लोकं कौतूहलसमन्वितः ॥२४॥ भीष्म
 उवाच । श्रूयन्ते पितरो देवा देवानामपि देवताः । देवाश्च पित-

ग्रहण कर २२ जब तक तू जीवित रहना चाहेगा, तब तक तेरी
 मृत्यु नहीं होगी, तेरी आज्ञा पाने पर ही तेरी मृत्यु होगी २६
 अब मैं तेरे कौनसे अभिलषित वरको दूँ, हे भरतश्रेष्ठ ! जो बात
 तेरे मनमें हो उसको तू मुझसे बता २७ पिताजीके इस प्रकार
 कहने पर मैंने हाथ जोड़ प्रणाम कर कहा, कि-हे श्रेष्ठ ! मैं
 आपके प्रसन्न होनेसे ही कृतकृत्य होगया ॥२१॥ हे महाद्युते !
 यदि मैं आपके अनुग्रहका (और भी) पात्र होऊँ तो मैं आपके
 मुखसे एक प्रश्नके उत्तरको सुनना चाहता हूँ ॥ २२ ॥
 तब उन धर्मात्माने मुझसे कहा, कि-हे भीष्म ! बता तू क्या
 बुझना चाहता है ? हे भारत ! तू मुझसे जो बुझेगा तेरे उस
 सन्देहको मैं दूर करूँगा ॥२३॥ तब मैंने तहाँ अन्तर्धान होकर
 खड़े हुए, पुण्ययात्राओंके लोकोंमें गए हुए अपने पितासे कौतू-
 हलमें भरकर बुझा; कि-॥ २४ ॥ पितृदेवता देवताओंके भी
 देवता कहलाते हैं, देवता और पितर भिन्न २ हैं अतः हम किस
 की पूजा करें ? (अर्थात् "कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः"
 इस श्रुतिमें लिखा है, कि-कर्मसे पितृलोक मिलता है और विद्या

राऽन्ये वा कान्यजामो वयं पुनः ॥३५॥ कथं च दत्तपस्माभिः
 श्राद्धं प्रीणात्यथो पितॄन् । लोकान्तरगतास्तात किन्तु श्राद्धस्य
 वा फलम् ॥३६॥ कान् यजन्ति स्म लोका वै सदेवनरदानवाः ।
 सयन्तारगन्धर्वाः सकिन्नरमहोरगाः ॥ ३७ ॥ अत्र मे संश-
 यस्तीव्रः कौतूहलमतीव च । तद् ब्रूहि मम धर्मज्ञ सर्वज्ञो ह्यसि मे
 मतः । एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य भीष्मस्योवाच वै पिता ॥ ३८ ॥
 शन्तनुरुवाच । संचोपेणैव ते वक्ष्ये यन्मां पृच्छसि भारत । पित-
 रश्च यथोद्भूताः फलं दत्तस्य चानव ॥ ३९ ॥ पितॄणां कारणं
 श्राद्धे शृणु सर्वं समाहितः । आदिदेवसृतास्तात पितरो दिवि

से देवलोक मिलता है, और ब्रह्मलोकसे नीचेके लोक पितृलोक
 कहलाते हैं, देवलोकपदसे ब्रह्मलोकको समझना चाहिये और
 दोनोंमें लेजाने वाले पितृयान और देवयान मार्ग हैं, स्वर्गलोकमें
 रहने वाले देवताओंके तीन लोकोंके ऊपर पितर रहते हैं और
 वे भी देवता माने जाते हैं । और “देवाः पितरः पितरो देवाः”
 इसप्रकार देवता और पितरोंका भी भेद सुननेमें आना है और
 जो जनक आदि राजे मर गए हैं, पितर उनसे निकृष्ट है, यह
 तीसरा सन्देह है अब हम किन्का पूजन करें ॥ ३५ ॥ (यदि
 पितर देवत्वको प्राप्त होजाते हैं तो श्राद्ध उनको तृप्त कर
 सकेगा, परन्तु दूसरे लोकोंमें गए हुए पितरोंको श्राद्ध कैसे तृप्त
 कर सकता है ? यही बात बुझते हैं) लोकान्तरमें गए हुए
 पितरोंको हमारा क्रिया हुआ श्राद्ध कैसे पहुँचता है ? और
 श्राद्धका क्या फल है इसको विस्तारसे कहिये ॥ ३६ ॥ देव
 दानव और मनुष्य तथा यज्ञ गंधर्व किन्नर और महासर्प किस
 की पूजा करते हैं ? (अर्थात् यदि पितर अथो लोकमें रहते हैं
 तो देवता उनको क्यों पूजते होंगे ? और यदि ऊर्ध्वलोकमें स्थित
 हैं तो हमसरीखे अल्पपुण्य मनुष्य तहाँ कैसे पहुँच सकते हैं ?

देवताः ॥४०॥ तान् यजन्ति स्म वै लोकाः सदेवासुरमानुषाः ।
 सयज्ञोरगगन्धर्वाः सकिञ्जरमहोरगाः ॥ ४१ ॥ आप्यायि-
 नाश्च ते श्राद्धैः पुनराप्याययन्ति च । जगत् सदेवगन्धर्वमिति
 ब्रह्मानुशासनम् ॥ ४२ ॥ तान् यजस्व महाभाग श्राद्धैः उपैरत-
 न्द्रितः । ते ते धेयो विधास्यन्ति सर्वकामफलप्रदाः ॥ ४३ ॥
 त्वया चाराध्यमानास्ते नामगोत्रादिकीर्तनैः । अस्मानाप्याय-
 अतः दोनों प्रकारसे श्रद्धा करना व्यर्थ है ? यह भ्रम है) ३७
 इस बातका मुझे बड़ा कुतुहल और सन्देह है, हे धर्मज्ञ ! इस
 बातको आप मुझसे कदिये क्योंकि-मैं आपको सर्वज्ञ मानता
 हूँ ॥ ३८ ॥ शान्तदुने कहा, कि-हे भारत ! जो बात तू मुझसे
 पूछता है, उसको मैं संक्षेपसे कहता हूँ, हे अनघ ! पितर जिस
 प्रकार उत्पन्न हुए हैं और उनको देनेसे जो फल मिलता है
 श्राद्धमें पितरोंके कारणको सावधान होकर सुन, हे तात ! स्व-
 र्गस्थ पितृदेवता आदिदेव ब्रह्माजीके पुत्र हैं ॥३६ ४०॥ देवता
 असुर मनुष्य यज्ञ राजस गन्धर्व किन्नर और महासर्प उनकी
 ही पूजा करते हैं ॥ ४१ ॥ ब्रह्माजीका अनुशासन है, कि-वे
 श्राद्धोंसे तृप्त करने पर देवता और गन्धर्व सहित जगत्को तृप्त
 करते हैं (अर्थात् वे देवता आदिके तृप्त करने पर भू आदि
 लोकमें स्थित देवता गन्धर्व और मनुष्य आदिको तृप्त करते हैं
 तब ये योगबलमे जहाँ पितर होते हैं तहाँ उनको श्राद्धीय अन्न
 आदि पहुँचाते हैं और यजमानको इष्ट वस्तु देते हैं और पितरों
 के मुक्त होने पर स्वयं ही तृप्त होकर यजमानको त्रिवर्ग-धर्म
 अर्थ और काम-से तृप्त करते हैं) ॥ ४२ ॥ हे महाभाग ! तू
 मुख्य कल्पसूत्रोंसे उन पितरोंका यजन कर तब वे सब काम-
 नाशोंके फलको देने वाले पितर तेरा कल्याण करेंगे ॥ ४३ ॥
 हे भारत ! यदि तू नाम गोत्र आदिका उच्चारण करके उनको

विप्यन्ति स्वर्गस्थानपि भारत ॥४४ ॥ मार्कण्डेयस्तु ते शेषमे-
तत्सर्वं प्रवक्ष्यामि । एष वै पितृभक्तश्च विदितात्मा च भारत४५
उपस्थितश्च श्राद्धेऽद्य ममैवानुग्रहाय वै । एनं पृच्छ महाभाग-
मित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ ४६

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वाणि श्राद्धकल्प-
प्रसंगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

भीष्म उवाच । ततोऽहं तस्य वचनान्मार्कण्डेयं समाहितः ।
प्रश्नं तमेवान्वपृच्छं यन्मे पृष्टः पुरा पिता ॥ १ ॥ स मामुवाच
धर्मात्मा मार्कण्डेयो महातपाः ॥ भीष्म वक्ष्यामि कात्स्नर्येन शृणुष्व
प्रयतोऽनघ ॥ २ ॥ अहं पितृप्रसादाद्दीर्घायुष्टुमवाप्तवान् । पितृ-
भक्त्यैव लब्धं च प्राग्लोके परमं यशः ॥ ३ ॥ सोऽहं युगस्य
पर्यन्ते बहुवर्षसहस्रिके । अशिरुह्य गिरिं मेरुं तपोऽनप्यं सुदुश्च-

तप्त करेगा तो वे हम स्वर्गमें स्थित पितरोंको तृप्त करेंगे ॥४४॥
और बाकी सब बातोंको मार्कण्डेयजी तुझसे कहेंगे, हे भारत !
ये पितृभक्त हैं और विदितात्मा हैं ॥ ४५ ॥ आज ये मेरे ऊपर
अनुग्रह करनेके लिये श्राद्धमें आए हैं, हे महाभाग ! तू इनसे
बृक्त ! यह कह कर शंतनु अदृश्य होगए ॥ ४६ ॥ सोलहवाँ
अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥

भीष्मजीने कहा, कि-तब मैं पिताजीके वचनसे मार्कण्डेय
जीके पास गया और मैंने पहिले अपने पिताजीसे जो प्रश्न
ब्रूझा था, वही प्रश्न उनसे ब्रूझा १ तब धर्मात्मा महातपस्वी
मार्कण्डेय मुझसे कहने लगे, कि हे निष्पाप भीष्म ! मैं तुझसे
सब बातें कहना हूँ तू सावधान होकर सुन २ मैंने पितृप्रसादसे
दीर्घायु पाई है और मैंने पितृभक्तिसे ही लोकमें बड़ा भारी यश
पाया है ३ एक समय मैं मेरुपर्वत पर चढ़कर अनेक सहस्र वर्षों तक
योग तप करता रहा ४ तब मैंने एकसमय पर्वतके उत्तरकी ओर

रम् ॥ ४ ॥ ततः कदाचित् पर्यापि दिनं प्रज्वाल्य तेजसा ।
 विमानं महदायान्तमुत्तरेण गिरेस्तदा ॥५॥ तस्मिन् विमाने पर्यके
 ज्वलितादित्यसन्निभत् । अपश्यत् तत्र चैवाह शयान दीप्ततेज-
 सम् ॥ ६ ॥ अंगुष्ठमात्रं पुरुषमग्नाग्निमिवाहितम् । सोऽहं तस्मै
 नमस्कृत्य प्रणम्य शिरसा विश्रुम् ॥ ७ ॥ सन्निविष्टं विमानस्थं
 पाद्यार्घ्यामपूजयम् । हृष्टं चैव दुर्धर्षं विद्याम त्वा कथं
 विभो ॥८॥ तपोवीर्यात् समुत्पन्नं नारायणगुणात्मकम् । दैवतं
 ह्यसि देवानामिति मे वर्तते मतिः ॥ ९ ॥ स मामुवाच धर्मात्मा
 स्मयमान इवानघ । न ते तपः सुचरितं येन मां नावबुध्यसे १०
 क्षणेनैव प्रमाणं स विश्रदन्त्यदनुत्तमम् । रूपेण न मया कश्चिद्
 दृष्टपूर्वः पृमान् क्वचित् ॥ ११ ॥ सन्तकुमार उवाच । विद्धि मां

से तेजसे आकाशको प्रकाशित करते हुए एक बड़े भारी विमान
 को आते हुए देखा ५ उस विमानके पलंगमें मैंने प्रज्वलित
 आदित्यकी समान दीप्त तेज वाले अग्निमें डाले हुए अग्निकी
 समान अंगुष्ठमात्र पुरुषको सोते हुए देखा मैंने उनको नमस्कार
 किया और उन विश्रुको शिरसे प्रणाम किया, फिर मैंने विमान
 में स्थित पुरुषकी पाद्य और अर्घ्य देकर पूजा की फिर मैंने उन
 दुर्धर्षसे पूछा, कि-हे विभो ! हम आपको किस प्रकार जाने ब-द
 हे नारायण ! यद्यपि आपका मायामय शरीर मेरे तपके
 प्रभावसे प्रकट हुआ है तथापि आप वास्तवमें कौन हैं, इसको मैं
 किस प्रकार जानूँ ? मेरा विचार है, कि-आप देवताओंके भी
 देवता हैं ९ तब वह धर्मात्मा मुस्करा कर कहने लगे, कि-
 हे अनघ ! तुमने तप भली प्रकार नहीं किया है ? अत एव
 तुम मुझे नहीं पहिचान सके १० क्षणपरमें ही उन्होंने दूसरे
 उत्तम प्रमाणके (महापुरुषके लक्षणके) स्वरूपको धारण कर
 लिया) ऐसे रूपवाला पुरुष मैंने पहिले कभी नहीं देखा था ११

ब्रह्मणः पुत्रं मानसं पूर्वजं विभोः । तपोवीर्यसमुत्पन्नं नारायण-
 गुणात्मकम् ॥ १२ ॥ सनत्कुमार इति यः श्रुतो देवेषु वै पुरा ।
 सोऽस्मि भार्गव भद्रन्ते कं कामं करवाणि ते ॥ १३ ॥ ये त्वन्ये
 ब्रह्मणः पुत्रा यवीयांसस्तु ते मम । आतरः सप्तदुर्धर्पास्तेषां
 वंशाः प्रतिष्ठिताः ॥ १४ ॥ क्रतुर्वसिष्ठः पुलहः पुलस्त्योऽत्रिस्तथा-
 गिराः । मरीचितुस्तथा धीमान् देवगन्धर्वसेविताः । त्रींश्लोकान्
 धारयन्तीमान् देवगन्धर्वपूजिताः ॥ १५ ॥ वयं तु यतिधर्माणः
 संयोज्यात्मानमात्मनिप्रनाधर्मं च कामं च व्यपहाय महामुने १६
 यपोत्पन्नस्तथैवाहं कुमार इति विद्धि माम् । तस्मात् सनत्कुमा-
 रेति नामैतन्ये प्रतिष्ठितम् ॥ १७ ॥ मद्भक्त्या ते तपशीर्षं मम
 दर्शनकान्तया । एष दृष्टोऽस्मि भवता कं कामं करवाणि ते १८

सनत्कुमारने कहा कि-तुम मुझे विभु ब्रह्माजीका पूर्वज मानसपुत्र
 जानो, मैं उनके तपके प्रभावसे उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा शरीर
 परमात्मावी मायामय है १२ प्राचीन कालसे ही देवताओंमें सन-
 त्कुमार प्रसिद्ध हैं हे भार्गव ! मैं वही सनत्कुमार हूँ तेरा कल्याण
 हो, मैं तेरी किस कामनाको पूर्ण करूँ १३ ब्रह्माजीके जो दूसरे
 पुत्र हैं वे मेरे छोटे भाई हैं, वे मेरे सात भाई परम दुर्धर्ष हैं उन
 के वंश प्रतिष्ठित हैं १४ (उनके नाम ये हैं) क्रतु वासिष्ठ पुलह
 पुलस्त्य अत्रि अंगिरा तथा युद्धिमान् मरीचि इन सबकी देवता
 और गंधर्व सेवा करते हैं, ये देवता और गंधर्वोंसे पूजित देवता
 तीनोंको धारण करते हैं १५ हम (सनत्कुमार सनक आदि)
 तो अपनी आत्माको आत्मामें लीन कर प्रभाके धर्म और कामको
 दूर करके यतिधर्मका पालन करते रहते हैं १६ मैं जैसे उत्पन्न
 हुआ हूँ वैसा ही कुमार हूँ अर्थात् बालककी समान राग द्वेष
 रहित हूँ अत एव तुम मुझे कुमार जानो इस लिये मेरा नाम सन-
 त्कुमार प्रसिद्ध है १७ तुने मेरा दर्शन करनेकी अभिलाषासे मेरी

इत्युक्तवन्तं तपहं प्रत्यवोचं सनातनम् । अनुज्ञातो भगवता प्रीय
 माणेन भारत ॥ १६ ॥ ततोऽहमेनमर्थं नो तमपृच्छं सनातनम् ।
 पृष्टः पितॄणां सर्गं च फलं श्राद्धस्य चानघा ॥ २० ॥ चिच्छेद सशर्पं
 भीष्म स तु देवेश्वरो मम । म मातुचाव धर्ता । ध्वं नथान्ते बहु-
 वार्षिके ॥ २१ ॥ देवानसृजत ब्रह्मा मां यक्ष्यन्तीति भार्गव ।
 तद्ब्रुत्सृज्य तथाऽऽत्मानमयजंस्ते फलार्थिनः ॥ २२ ॥ ते शप्ता ब्रह्मणा
 मृदा नष्टमंज्ञा दिवोकसः । न स्म विञ्चिद्विजानन्ति ततो लोको
 ऽप्यमुह्यत ॥ २३ ॥ ते भूयः प्रणताः शप्ता प्रायाचतं पिता-
 महम् । अनुग्रहाय लोकानां ततस्तानववीदिदम् ॥ २४ ॥ प्राय-

भक्तिमें भर कर तप किया था, सो मैं आगवाहूँ, वता ! अब मैं
 तेरी किस इच्छाको पूर्ण करूँ ? हे भारत ! सनातनकुमार इस
 प्रकार कह चुके तब मैंने उनसे कहा, कि आपने मुझे मसन्न होकर
 आज्ञा फिर देदी १६ तब मैंने उनसे इस सनातन वरनको वृक्षा,
 हे अनघ ! हे भीष्म ! पितरोंकी उत्पत्ति और श्राद्धके फलको
 वृक्षनेपर उन देवेश्वरने मेरे सन्नेहको दूर कर दिया था
 बहुत कालसे आरम्भकी हुई कथाके अन्तमें, उन्होंने मुझसे कहा,
 कि—हे विप्र ! मैं तुम्हारे साथ रमण करूँगा उस सबको तुम
 यथार्थरीतिसे सुनो ॥ २१ ॥ हे भार्गव ! ब्रह्माजीने अपनी पूजा
 करानेके विचारसे देवताओंको रचा, परन्तु वे (इन्द्रियोंके मसन्न
 करना रूप दृष्ट) फलको चाहकर आत्मा (शरीर) का पूजन
 करने लगे ॥ २२ ॥ तब ब्रह्माजीके शाप देने पर उन मृदोंकी
 संज्ञा जाती रही, और वे कुछ न जान सके तब (उनका अनु-
 सरण करनेवाले) मनुष्य भी मोहमें पड़ गए ॥ २३ ॥ वे शाप
 पाने पर ब्रह्माजीको प्रणाम करके कहने लगे, तब लोकों पर
 अनुग्रह करनेके लिये उनसे कहने लगे ॥ २४ ॥ अब तुम प्राय
 शिवत्ता करो, क्योंकि—तुमने व्यभिचार (पूज्यपूजाव्यतिक्रम)

ब्रह्मणः पुत्रं मानसं पूर्वज विभोः । तपोवीर्यसमुत्पन्नं नारायण-
 गुणात्मकम् ॥ १२ ॥ सनत्कुमार इति यः श्रुतो देवेषु यै पुरा ।
 सोऽस्मि भार्गव भद्रन्ते कं कामं करवाणि ते ॥ १३ ॥ ये त्वन्ये
 ब्रह्मणः पुत्रा यवीयांसस्तु ते मम । आतरः सप्तदुर्धर्पास्तेषां
 वंशाः प्रतिष्ठिताः ॥ १४ ॥ ऋतुर्वसिष्ठः पुलहः पुलस्तयोऽत्रिस्तथा-
 गिराः । मरीचितुस्तथा श्रीमान् देवगन्धर्वसेविताः । त्रींल्लोकान्
 धारयन्तीमान् देवगन्धर्वपूजिताः ॥ १५ ॥ वयं तु यतिधर्माणः
 संयोज्यात्मानमात्मनिप्रनाधर्मं च कामं च व्यपहाय महामुने १६
 यथोत्पन्नस्तथैवाहं कुमार इति विद्धि माम् । तस्मात् सनत्कुमा-
 रेति नामैतन्मे प्रतिष्ठितम् ॥ १७ ॥ मद्भक्त्या ते तपश्चीर्णं मम
 दर्शनकांक्षया । एष दृष्टोऽस्मि भवता कं कामं करवाणि ते १८

सनत्कुमारने कहा कि—तुम मुझे विशु ब्रह्माजीका पूर्वज मानसपुत्र
 जानो, मैं उनके तपके प्रभावसे उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा शरीर
 परमात्माकी मायामय है १२ प्राचीन कालसे ही देवताओंमें सन-
 त्कुमार प्रसिद्ध हैं हे भार्गव ! मैं वही सनत्कुमार हूँ तेरा कन्याण
 हो, मैं तेरी किस कामनाको पूर्ण करूँ १३ ब्रह्माजीके जो दूसरे
 पुत्र हैं वे मेरे छोटे भाई हैं, वे मेरे सात भाई परम दुर्धर्प हैं उन
 के वंश प्रतिष्ठित हैं १४ (उनके नाम ये हैं) ऋतु वासिष्ठ पुलह
 पुलस्त्य अत्रि अंगिरा तथा युद्धिमान् मरीचि इन सबकी देवता
 और गंधर्व सेवा करते हैं, ये देवता और गंधर्वोंसे पूजित देवता
 तीनोंको धारण करते हैं १५ हम (सनत्कुमार सनक आदि)
 तो अपनी आत्माको आत्मामें लीन कर ममाके धर्म और कामको
 दूर करके यतिधर्मका पालन करते रहते हैं १६ मैं जैसे उत्पन्न
 हुआ हूँ वैसा ही कुमार हूँ अर्थात् बालककी समान राग द्वेष
 रहित हूँ अत एव तुम मुझे कुमार जानो इस लिये मेरा नाम सन-
 त्कुमार प्रसिद्ध है १७ तुम्हें मेरा दर्शन करनेकी अभिलाषासे मेरी

इत्युक्तवन्तं तमहं पत्यवोचं सनातनम् । अनुज्ञातो भगवता प्रीय-
माणेन भारत ॥ १६ ॥ ततोऽहमेनमर्थं नो तमपृच्छं सनातनम् ।
पृष्टः पितॄणां सर्गं च फलं श्राद्धस्य चानघ ॥ २० ॥ विच्छेद संशयं
भीष्म स तु देवेश्वरो मम । म नागुवाच भार्गवः । कथान्ते बहु-
वार्षिके ॥ २१ ॥ देवानसृजत ब्रह्मा मां यद्यन्तीति भार्गव ।
तद्युत्सृज्य तथाऽत्मानमयजंस्ते फलार्थिनः ॥ २२ ॥ ते शप्ता ब्रह्मणा
मृदा नष्टसंज्ञा दिवोकसः । न स्प किञ्चिद्विजानन्ति ततो लोको-
ऽप्यमुह्यत ॥ २३ ॥ ते भूयः प्रणताः शप्ताः प्रायाचतं पिता-
महम् । अनुग्रहाय लोकानां ततस्तानब्रवीदिदम् ॥ २४ ॥ प्राय-

भक्तिमें भर कर तप किया था, सो मैं आगयाहूँ, वता ! अब मैं
तेरी किस इच्छाको पूर्ण करूँ १८ हे भारत ! सनातनकुमार इस
प्रकार कह चुके तब मैंने उनसे कहा, कि आपने मुझे प्रसन्न होकर
आज्ञा फिर देदी १६ तब मैंने उनसे इस सनातन मर्शनको वृत्ता,
हे अनघ ! हे भीष्म ! पितरोंकी उत्पत्ति और श्राद्धके फलको
वृत्तनेपर उन देवेश्वरने मेरे सन्तहको दूर कर दिया था
बहुन कालसे आरम्भकी हुई कथाके अन्तमें, उन्होंने मुझसे कहा,
कि—हे विमर्षे ! मैं तुम्हारे साथ रमण करूँगा उस सबको तुम
यथार्थरीतिसे सुने ॥ २१ ॥ हे भार्गव ! ब्रह्माजीने अपनी पूजा
करानेके विचारसे देवताओंको रचा, परन्तु वे (इन्द्रियोंको प्रसन्न
करना रूप दृष्ट) फलको चाहकर आत्मा (शरीर) का पूजन
करने लगे ॥ २२ ॥ तब ब्रह्माजीके शाप देने पर उन मृदोंकी
संज्ञा जाती रही, और वे कुछ न जान सके तब (उनका अनु-
सरण करनेवाले) मनुष्य भी मोहमें पड़ गए ॥ २३ ॥ वे शाप
पाने पर ब्रह्माजीको प्रणाम करके कहने लगे, तब लोकों पर
अनुग्रह करनेके लिये उनसे कहने लगे ॥ २४ ॥ अब तुम प्राय-
श्चित्त करो, क्योंकि—तुमने व्यभिचार (पूज्यपूजाव्यतिक्रम)

श्रित्तं चरध्वं वै व्यभिचारो हि वः कृतः । पुत्रांश्च परिपृच्छन्नां
 ततो ज्ञानमवाप्स्यथ ॥२५॥ प्रायश्चित्तक्रियार्थन्ते पुत्रान् पपच्छु-
 रार्तवत् । तेभ्यस्ने प्रयतात्मानः शशंमुस्तनयास्तदा ॥ २६ ॥
 प्रायश्चित्तानि धर्मज्ञा द्वाङ्मनः कर्मण नि वीशंसन्ति कुशला नित्यं
 च क्षुभ्यामपि नित्यशः ॥ २७ ॥ प्रायश्चित्तार्थतत्त्वज्ञा लब्धसंज्ञा
 दिवाकसः । गम्यतां पुत्रकारचेति पुत्रैर्भक्तारच ते तदा ॥ २८ ॥
 अभिशप्तास्तु ते देवाः पुत्रवाक्येन निन्दिताः । पितामहमुपा-
 गच्छन् संशयच्छेदनाय वा ॥ २९ ॥ ततस्तानब्रवीद्देवो यूयं वै
 ब्रह्मवादिनः । तस्माद्यदुक्तं युष्माकं तत्तथा न तदन्यथा ॥३०॥
 यूयं शरीरकर्तारस्तेषां देवा भविष्यथाते तु ज्ञानप्रदावारः पितरो
 वो न संशयः ॥३१॥ अन्योन्यं पितरो यूयं ते चैवेति न संशयः ।

कियो है (और अपनी पूजा की है) तुम अपने पुत्रोंसे बूझो,
 तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा ॥ २५ ॥ तब वे नीचत्वको प्राप्त
 होनेसे आर्तकी समान पीड़ित हो अपने पुत्रोंसे प्रायश्चित्तको
 बूझने लगे, तब पुत्रोंने ध्यान धर उनसे कहा ॥ २६ ॥ कुशल
 पुरुष वाणी (स्तावृ) मन (श्रद्धा भक्ति युक्त ध्यान) और
 कर्म (नमस्कार आदि) प्रायश्चित्त बताते हैं और वे नेत्रोंसे भी
 प्रायश्चित्त करना बताते हैं ॥ २७ ॥ हे पुत्रों ! हे देवताओं
 तुम प्रायश्चित्तके तत्त्वको जान जाओगे, हे पुत्रों ! तुम जाओ
 जब पुत्रोंने उनसे इसप्रकार कहा अर्थात् पितरोंकी पुत्र कह कर
 निन्दा की २८ तब वे शप्त देवता पुत्रोंके वाक्यसे, भी निन्दा
 पाकर ब्रह्माजीके पास अपना संशय मिटानेको पहुँचे ॥ २९ ॥
 तब ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा, कि-तुम ब्रह्मवादी हो, इस
 लिये उन्होंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह ठीक है, इसमें कुछ
 विपरीत भाव नहीं है ॥ ३० ॥ तुम शरीरके रचने वाले उनके
 देवता होगे, और वे तुमको ज्ञान देने वाले तुम्हारे पितर हैं, इस

देवाश्च पितरश्चैव तद्बुद्ध्यन्तं दिवोकसः ॥ ३२ ॥ ततस्ते
 पुनरागम्य पुत्रान्बुद्धिर्दिवोकसः । ब्रह्मणा छिन्नमन्देहाः प्रीति-
 मन्तः परस्परम् ॥ ३३ ॥ यूयं नै पितरोऽस्माकं यैवेयं प्रति-
 वोजिताः । धर्मज्ञाः कश्च वः कामः को वरो वः प्रदीयताम् ३४
 यदुक्तं चैव युष्माभिस्तत्तथा न तदन्वया । उक्ताश्च यस्माद्युष्माभिः
 पुत्रका इति नै वयम् । तस्माद्भवन्तः पितरो भविष्यन्ति न
 संशयः ॥ ३५ ॥ यानिद्वा तु पितृन् श्राद्धैः क्रियाः फाथित् परि-
 ष्यति । राक्षसा दानवा नागाः फलं प्राप्स्यन्ति तस्य तत् ॥ ३६ ॥
 श्राद्धैराप्यायिताश्चैव पितरः सोममव्ययम् आप्यायमाना युष्माभि-
 र्वर्धयिष्यन्ति नित्यदा ॥ ३७ ॥ श्राद्धैराप्यायितः सोमो लोका
 नाप्याययिष्यति । समुद्रपर्वतवनं जगमाजंगमैर्दृतम् ॥ ३८ ॥

में कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३१ ॥ हे देवता और पितर! तुम दोनों
 आपसमें एक दूसरेके पितर हो इसमें कुछ सन्देह नहीं है, इस
 बातको हे स्वर्गवासी ! तुम जानलो ३२ तब वे स्वर्गलोकवासी
 ब्रह्माजीके सन्देहको दूर करने पर परस्पर मसन्न होकर पुत्रोंसे
 कहने लगे ॥ ३३ ॥ कि-आप हमारे पितर हैं, क्यों कि-आपने
 हमको ज्ञान दिया है, आप धर्मज्ञ हैं आपकी क्या इच्छा है और
 आपको क्या वर दिया जाय ॥ ३४ ॥ तुमने जो बात कही है, वह
 ठीक है तुमने हमसे " पुत्रों-हे पुत्रों ! " कहा है, अत एव
 तुम पितर होओगे, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३५ ॥ राक्षस
 दानव और नाग तुम पितरोंको श्राद्धके द्वारा पूजन कर जिस
 क्रियाको करेंगे उसके फलको वे अवश्य ही पावेंगे ॥ ३६ ॥
 श्राद्धोंसे आप्यायित (तृप्त) होते हुए और तुमसे भी तृप्ति पाते
 हुए (लौकिक) पितर (अपने अधिदेवता) सोमको तृप्त
 करेंगे ॥ ३७ ॥ श्राद्धोंसे आप्यायित, हुआ चन्द्रमा समुद्र पर्वत
 वनं और चराचरोंसे व्याप्य हुए लोकोंको आप्यायित (तृप्त)

श्राद्धानि पुष्टिकामाश्च ये करिष्यन्ति मानवाः । तेभ्यः पुष्टिं प्रजा-
 श्वैव दास्यन्ति पितरः सदा ॥ ३६ ॥ श्राद्धे ये च प्रदास्यन्ति
 त्रीन्पिडान्नामगोत्रतः । सर्वत्र वर्तमानांस्तान्पितरः सपिता
 महान् । भविष्यन्ति हि सततं श्राद्धदानेन तर्पिताः ॥ ४० ॥ एव-
 माज्ञापितं पूर्वं ब्रह्मणा परमेष्ठिना । इति तद्वचनं सत्यं भवत्यद्य
 दिवोकसः । पुत्राश्च पितरश्चैव वयं सर्वे परस्परम् ॥ ४१ ॥
 सनत्कुमार उवाच । त एते पितरो देवा देवाश्च पितरस्तथा ।
 अन्योन्यं पितरो ह्येते देवाश्च पितरश्च ह ॥ ४२ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

मार्कण्डेय उवाच । इत्युक्तोऽहं भगवता देवदेवेन भास्वता ।
 सनत्कुमारेण पुनः पृष्टवान् देवमव्ययम् ॥ १ ॥ सन्देहपमरश्रेष्ठं
 भगवन्तपरिन्दमम् । निघोष तन्मे गांगेय निखिलं सर्वमादितः २

करेगा ॥ ३८ ॥ जो पुरुष पुष्टि पानेकी इच्छासे श्राद्ध करेगे
 पितर उनको सदा पुष्टि और सन्तान देंगे ॥ ३६ ॥ जो पुरुष
 सर्वत्र विद्यमान पिता पितामह और प्रपितामहोंको नाम और
 गोत्रका उच्चारण कर तीन पिण्ड देंगे श्राद्ध करनेसे तप्त हुए
 पितर उनको सदा बढावेंगे ॥ ४० ॥ परमेष्ठी ब्रह्माजीने ऐसी
 आज्ञा दी है, हे स्वर्गवासियों! वह वचन अब सत्य हो हम सब
 परस्परमें पुत्र और पितर हैं । ४१ ॥ सनत्कुमारने कहा, कि-
 जो देवता हैं वह पितर हैं और जो पितर हैं वह देवता हैं इस
 प्रकार परस्परमें देवता ही पितर हैं और पितर ही देवता हैं ४२
 सप्तदश अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥

मार्कण्डेयजीने कहा, कि-प्रकाशवान् भगवान् देवदेवके इस
 प्रकार कहने पर मैंने उन अरिन्दमन देवश्रेष्ठ अव्यय भगवान्से
 अपने सारे सन्देहको फिर-फिराभसे पूछा कि-॥१-२॥पितरोंके

कियन्तो वै पितृगणाः कस्मिंस्त्र्यल्लोके प्रतिष्ठिताः । वर्तन्ति देव-
 गवरा देवानां सोमवर्धनाः ॥ ३ ॥ सनत्कुमार उवाच । सम्यक्ते
 यजतां श्रेष्ठ स्वर्गे पितृगणाः स्मृताः । चत्वारो मूर्तिमन्तश्च त्रय-
 तेषाममूर्तयः ॥४॥ तेषां लोकं विसर्गं च कीर्तयिष्यामि तच्छृणु ।
 प्रभावं च महत्त्वं च विस्तरेण तपोधन ॥ ५ ॥ धर्ममूर्तिधरास्तेषां
 त्रयो ये परमा गणाः । तेषां नामानि लोकाश्च कथयिष्यामि
 तच्छृणु ॥ ६ ॥ लोकाः सनातना नाम यत्र तिष्ठन्ति भास्वराः ।
 अमूर्तयः पितृगणास्ते चैव पुत्राः मजापतेः ॥७॥ विराजस्य द्विज-
 श्रेष्ठ वीराजा इति विश्रुताः । यजन्ति तान् देवगणा विधिदृष्टेन

कितने गण हैं और वे (श्राद्धके द्वारा) सोमको चढ़ाने वाले
 देवश्रेष्ठ देवता किस लोकमें प्रतिष्ठित रहते हैं ॥ ३ ॥
 सनत्कुमारने कहा, कि-हे पूजन करने वालोंमें श्रेष्ठ ! स्वर्गमें
 रहने वाले सात पितर हैं, उनमें चार मूर्तिमान् हैं और तीन
 मूर्तिरहित हैं । अर्थात् सुकाल आंगिरस सुस्वभा और सोमप ये
 चार मूर्तिमान् हैं अर्थात् कर्मफलसे प्राप्त हुए दिव्य शरीरको
 धारण कर रहे हैं और वीराज अग्निष्वाप्त और बर्हिषदये तीन
 अमूर्त हैं, कामरूप है अर्थात् आकाशसे भी बड़े हैं और परमाणु
 के उदरमें भी भवेश कर सकते हैं ॥ ४ ॥ हे तपोधन ! मैं उनके
 लोक विसर्ग प्रभाव और महत्त्वको विस्तारपूर्वक कहता हूँ, उस
 को सुनो ॥५॥ जो तीन परम गण हैं वह धर्मकी मूर्तिको धारण
 करने वाले हैं उनके नाम और लोकोंको मैं कहता हूँ, सुनो । ६।
 जिनमें लोक (विषय) सनातन । नित्य प्रकट रहते और भूत
 भविष्यत् समीप और दूर सब विषय जिनके समीप ही रहता
 है वे चिन्मात्रशरीर अर्थात् विराजमजापतिके मानसपुत्र पितर
 अमूर्त हैं अर्थात् मनोमय शरीरवाले हैं ॥ ७ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ !
 विराज मजापतिके पुत्र होनेके कारण वे वीराज नामसे प्रसिद्ध

चन ॥२७॥ अप्यमूर्तानथ पितृन् सा ददर्श शुचिस्मिता १ संभूता
 मनसा तेषां पितृन् स्वान्नाभिजानती ॥२८॥ श्रीङ्गिता तेन दुःखेन
 वभूव वरवर्णिनी । सा दृष्ट्वा पितरं वव्रे वसुं नामांतरक्षिगम् २६
 अमावसुरिति ख्यातमायोः पुत्रं यशस्विनम् । अद्रिकाप्सरसा युक्तं
 विमाने धिष्ठितं दिवि ॥ ३० ॥ सा तेन व्यभिचाररेण मनसः
 कामरूपिणी । पितरं प्रार्थयित्वा न्यं योगभ्रष्टा पपात ह ॥ ३१ ॥
 श्रीण्यपश्यद्विमानानि यतमाना दिवरच्युता । असरेणुप्रमाणानि
 सापश्यत्तेषु तान पितृन् ॥३२॥ सुसूक्ष्मानपरिव्यक्तानग्नीनग्नि-
 दिववाहितान् । आयध्वमित्युवाचार्ता पतन्ती तानवाक्शिराः ३३

बाला प्रसिद्ध सखेवर निकला है, उसने इन पितरोंको पहिले
 कभी नहीं देखा था २७ उस पवित्र हास्यावालीने अमूर्त पितरों
 को दिव्यदृष्टिसे देखा परन्तु उनके देखकर भी वह यह न जान
 सकी कि—(ये मेरे पिता हैं) और मैं इनके मनसे उत्पन्न
 हुई हूँ ॥ २८ ॥ (उनके स्वरूपका ज्ञान न होनेसे) वह
 वरवर्णिनी दुःखके कारण लज्जित होगई, फिर उसने चारों
 ओर देख कर आयुके पुत्र अमावसु नामसे प्रसिद्ध अन्त-
 रिक्षचारी वसुके अद्रिका अप्सराके साथ विमानमें बैठे
 देख कर उसको अपना पिता समझ लिया ॥ २६-३० ॥ वह
 इच्छानुसार रूप धारण करने वाली स्त्री (इस पिताके बदलने
 रूप) मानसिक व्यभिचारके कारण दूसरे पिताको बना कर
 योगभ्रष्ट हो कर गिरने लगी ॥३१॥ उस स्वर्ग से भ्रष्ट होती हुई
 ने गिरते २ असरेणुके आकारके तीन विमानोंको देखा उसमें
 उनने पितरोंको देखा ॥ ३२ ॥ वे सुसूक्ष्म (होने पर भी विमान
 एक देशमें बैठे हुए होनेसे) अपरिव्यक्त-अप्रकट अग्निमें स्थापित
 किये हुए अग्नियोंकी समान दीख रहे थे, उनसे नीचेको शिर
 करके गिरती हुई उसने आर्त होकर रत्ना करो रत्ना करो

तैरुक्ताप्सा तु मा भैपीरितो व्योम्नि व्यवस्थिता । ततः प्रसाद-
 यामास तान् पितॄन् दीनया गिरा ॥३४॥ ऊचुस्ते पितरः-कन्यां
 भ्रष्टैश्वर्या व्यतिक्रमात् । भ्रष्टैश्वर्या स्वदोषेण पतसि त्वं शुचि-
 स्मिते ॥ ३५ ॥ यैः क्रियन्ते हि कर्माणि शरीरैर्दिवि देवतैः ।
 तैरेव तत्कर्मफलं प्राप्नुवन्तीह देवताः ॥ ३६ ॥ सद्यः फलन्ति
 कर्माणि देवत्वे प्रेत्य मानुषे । तस्माच्चत्तपसः पुत्रि प्रेत्येदं प्राप्स्यसे
 फलम् ॥ ३७ ॥ इत्युक्ता पितृभिः सा तु पितॄन् प्रासादयत् स्वकान् ।
 ध्यात्वा प्रसादं ते चक्रुस्तस्याः सर्वेऽनुकम्पया ॥ ३८ ॥ अवश्य
 भाविनं ज्ञात्वा तैर्धर्मपूजुस्ततस्तु ताम् । अस्य राज्ञो वसोः कन्या
 त्वमपत्यं भविष्यसि ३९ उत्पन्नस्य पृथिव्यां तु मानुषेषु महात्मनः ।
 कन्यां च भूत्वा लोकान् स्वान्पुनः प्राप्स्यसि दुर्लभान् ॥४०॥

कहा ॥३३॥ उन्होंने उससे कहा, कि-मत, हर तब वह आकाश
 में खड़ी, रह गई तब वह उन ऋषियोंको दीन चाणीमें, प्रसन्न
 करने लगी ॥ ३४ ॥ व्यतिक्रम करनेके कारण कन्याको ऐश्वर्य-
 भ्रष्ट होकर गिरती हुई देख कर वे पितर-कहनेलगे, कि हे शुचि-
 स्मिते ! तू अपने दोषसे भ्रष्ट होकर गिर रही है ॥३५॥ देवता
 स्वर्गमें जिस शरीरसे जो कर्म करते हैं, उन ही शरीरोंसे
 देवता उन कर्मोंके फलोंको भोगते हैं ॥ ३६ ॥ कर्म (योगज-
 धर्म) देवत्वमें (संकल्पमात्र होनेसे) तत्काल फल-देते है और
 मनुष्य शरीरमें मरने पर फल देते हैं, इसकारण-हे पुत्रि ! तू
 मर करके इस फलको भोगेगी (अर्थात् तू मनुष्य हो जा) ३७
 पितरोंके इसप्रकार कहने पर, उसने अपने पितरोंको प्रसन्न
 किया तब उन सर्वोंने ध्यान घर कर उस पर कृपा की ॥३८॥
 वे अवश्य होने वाली घटनाको जान कर उससे कहने लगे, कि-
 जब यह महात्मा वसु मनुष्योंमें उत्पन्न होगा, तब तू इस राजा
 की कन्या होगी कन्या होनेके अनन्तर तू अपने दुर्लभ लोकोंको

पराशरस्य दायादं त्वं पुत्रं जनयिष्यसि । स वेदमेकं ब्रह्मर्षिं
 रचतुर्धा विभजिष्यति ॥४१॥ महाभिषस्य पुत्रो द्वौ शन्तनोः कीर्ति-
 वर्धनौ । विचित्रवीर्यं धर्मज्ञं तथा चित्राङ्गदं शुभम् ॥४२॥ एता-
 न्नुत्पाद्य पुत्रांस्त्वं पुनर्लोकानवाप्स्यसि । व्यतिक्रमात् पितृणां च
 जन्म प्राप्स्यसि कुत्सितम् ॥ ४३ ॥ अस्यैव राज्ञः कन्या त्वम
 द्विकार्या भविष्यसि। अष्टविंशे भवित्री त्वं द्वापरे मत्स्ययोनिजा ४४
 एवमुक्ता तु दाशेयी जाता सत्यवती तदा । मत्स्ययोर्नां समु-
 त्पन्ना राज्ञस्तस्य वसोः सुता ॥ ४५ ॥ वैभ्राजा नाम ते लोका
 दिवि सन्ति सुदर्शनाः । यत्र बर्हिषदो नाम, पितरो दिवि
 विश्रुताः ॥ ४६ ॥ तान् वै देवगणाः सर्वे यज्ञगन्धर्वराज्ञसाः ।
 नागाः सर्पाः सुपर्णाश्च भावयन्त्यभितौजसः ॥४७॥ स ते पुत्रा

पावेगी ॥ ३६-४० ॥ तू पराशरकी सन्तान पुत्रो उत्पन्न
 करेगी, वह ब्रह्मर्षि एक वेदको चार भागोंमें विभक्त करेगा, ४१
 (पूर्वजन्ममें) महाभिष, नाम वाले और (वर्तमान जन्ममें)
 शन्तनु नाम वाले राजाके कीर्तिको बढ़ने वाले दो पुत्र होंगे, एक
 धर्मज्ञ विचित्रवीर्य तथा दूसरा शुभ चित्राङ्गद इन पुत्रोंको उत्पन्न
 करके तू अपने लोकोंमें फिर आजावेगी, पितरोंका व्यतिक्रम
 करनेके कारण तू कुत्सित जन्मको पावेगी ॥४२-४३॥ तू इस
 राजाकी कन्या होगी और तू अद्रिकामें उत्पन्न होगी तू अट्टाईसवें
 द्वापरमें मत्स्ययोनिमें उत्पन्न होगी ॥ ४४ इस प्रकार कहनेके
 अनन्तर वह राजा वसुकी पुत्री (वन कर) मत्स्ययोनिमें उत्पन्न
 हुई थी और वह दाशेयी सत्यवती कहलाती थी ॥ ४५ ॥
 (अब तीसरे बर्हिषद पितरोंका वर्णन करते हैं) स्वर्गमें वैभ्राज
 (विभ्राज सूर्य) के सुदर्शन लोक हे उसमें बर्हिषद नामक स्वर्ग
 में प्रसिद्ध पितर रहते हैं ॥ ४६ ॥ उनकी सब देवता सब यज्ञ
 गन्धर्व, राज्ञस नाग और अभित पराक्रमी सुपर्ण उपासना करते

महात्मानः पुलस्त्यस्य प्रजापतेः । महात्मनो महाभागोस्तेजो-
युक्तास्तपस्विनः ॥ ४८ ॥ एतेषां मानसी कन्या पीवरी नाम
विश्रुता । योगा च योगिपत्नी च योगिमाता तथैव च ॥ ४९ ॥
भवित्री द्वापरं प्राप्य युगधर्मभृताम्बरा । पराशरकुलोद्भूतः शुको
नाम महातपाः ॥ ५० ॥ भविष्यति युगे तस्मिन् महायोगी द्विज-
र्षभः । व्यासादरण्यां संभूतो विधूमोऽग्निरिव ज्वलन् ॥ ५१ ॥
स तस्यां पितृकन्यायां पीवर्या जनयिष्यति कन्यां पुत्रांश्च चतुरो
योगाचार्यान् महाव्रतान् ॥ ५२ ॥ कृष्णं गौरं प्रभुं शंभुं कृत्वीं
कन्यां तथैव च । ब्रह्मदत्तस्य जननीं महिषीं त्वणुहस्य च ॥ ५३ ॥
एतानुत्पाद्य धर्मात्मां योगाचार्यान् महाव्रतान् । श्रुत्वा स्वजनका-
द्वर्मान् व्यासादमितबुद्धिमान् ॥ ५४ ॥ महायोगी ततो गन्ता
पुनरावतिनीं गतिम् । यत्तत्पदमनुद्विग्नमव्ययं ब्रह्म शारवतम् ५५ ॥

है ॥ ४७ ॥ वे तेजोयुक्त महात्मा महाभाग तपस्वी महात्मा
पुलंस्य प्रजापतिके पुत्र हैं ॥ ४८ ॥ इनकी मानसी कन्या पीवरी
नामसे मसिद्ध है, यह धर्मधारिणी द्वापर युगमें स्वयं भी योगनी
होगी और योगीकी पत्नी तथा योगीकी माता भी होगी, उस युगमें
पराशरके कुलमें शुक नामक महातपस्वी होंगे वे द्विजश्रेष्ठ महा-
योगी होंगे वह व्यासजीसे अरणीमें निर्धूम अग्निकी समान
उत्पन्न होंगे ॥ ४९-५० ॥ वह इस पितृकन्या पीवरीमें कृष्ण गौर
प्रभु और शंभु इन चार महावली योगाचार्योंको और ब्रह्मदत्तकी
जननी तथा अणुहकी पत्नी कृत्वी कन्याको उत्पन्न करेंगे ॥ ५२ ॥
वह धर्मात्मा इन महाव्रतधारी योगाचार्योंको उत्पन्न करेंगे फिर
बुद्धिमान् और महायोगी अपने पिता व्यासजीसे धर्मोंको सुनकर
पुनरावतिनी (जिसको पाने पर फिर लौटना नहीं होता है
ऐसी) गतिको प्राप्त होंगे, वह गति (पद) उद्वेग रहित अव्यय
(कभी क्षीण न होने वाली) शारवत ब्रह्मगति है ॥ ५३-५५ ॥

अमूर्तिमन्तः पितरो धर्ममूर्तिप्ररा मुने । कथा यत्रेयमुत्पन्नाः वृष्य-
 न्धककुलान्वयाः ॥ ५६ ॥ सुकाला नाम पितरो वसिष्ठस्य प्रजा-
 पतेः । निरता दिशि लोकेषु ज्योतिर्भासिषु भासुराः । सर्वकाम-
 समृद्धेषु द्विजास्तान् भावयन्त्युत ॥ ५७ ॥ तेषां चै मानसी कन्या
 गौर्नाम्ना दिशि विश्रुता । तत्रैव वंशे यद् दत्ता शुक्रस्य महिषी
 प्रिया । एकशृङ्गेति विश्रुता साध्यानां कीर्तिवर्धिनी ॥ ५८ ॥
 मरीचिगर्भास्तांलोकान् समाश्रित्य ध्यवस्थिताः । ये त्वथागि-
 रसः पुत्राः साध्यैः सम्भविताः पुरा ॥ ५९ ॥ ज्ञानं च त्रिषण्णा-
 स्तात भावयन्ति फलाशिनः । तेषां तु मानसी कन्या यशोदा
 नाम विश्रुता ॥ ६० ॥ पत्नी सा विश्वमहत् स्तुता चै वृद्ध-

हे मुने ! अमूर्तिमान् पितर धर्मकी मूर्तिको धारण करने वाले हैं वृष्णि और अधक कुलोंसे सम्बन्ध रखने वाली कथा इनसे ही सम्बन्ध रखती है ॥ ५६ ॥ (इस प्रकार अमूर्तिमान् देवपूज्य तीन पितृगणोंकी कथा कह कर अब मनुष्योंके पूजनीय चार पितृगणोंमेंसे पहिले सुकाल नामक पितरोंका वर्णन करते हैं) वसिष्ठ मजापतिके सुकाल नामक पितर हैं, वे दमकते हुए पितर स्वर्गमें सब कामनाओंसे भरे पुरे और ज्योतिके कारण दमकते हुए लोकोंमें निवास करते हैं ॥ ५७ ॥ उनकी मानसी कन्या स्वर्गमें गौ नामसे प्रसिद्ध है (हे भीष्म !) वह तुम्हारे ही वंशमें दी गई है और वह शुक्रकी प्यारी पदरुनी थी; वह साध्योंकी कीर्ति बढ़ाने वाली एकशृङ्गा नामसे प्रसिद्ध है ॥ ५८ ॥ (अब दूसरे पितृगणका वर्णन करते हैं) जिन अंगिरसके पुत्रोंके पहिले साध्योंने पढ़ाया था वे सूर्यकी किरणोंसे प्रकाशित रहने वाले लोकोंका आश्रय लेकर रहते हैं ॥ ५९ ॥ फल चाहने वाले त्रिषण्ण पुरुष उन गणोंकी पूजा करते हैं, उनकी मानसी कन्या यशोदा नामसे प्रसिद्ध है ॥ ६० ॥ वह विश्वमहत् की पत्नी है

शर्मणः । राजर्षेर्जननी चापि दिलीपस्य महात्मनः ॥६१॥ तस्य यज्ञे पुरा गीता गाथाः प्रीतैर्महर्षिभिः । तदा देवयुगे तात वाजिमेधे महामखे ॥ ६२ ॥ अग्नेर्जन्म तथा श्रुत्वा शाण्डिलस्य महात्मनः । दिलीपं यजमानं ये पश्यन्ति सुसमाहिताः । सत्यवन्तं महात्मानं तेषां स्वर्गजितो नराः ॥ ६३ ॥ सुस्वधा नाम पितरः कर्दमस्य प्रजापतेः । समुत्पन्नास्तु पुलहान्महात्मानो द्विजर्षभाः ६४ लोकेषु दिवि वर्तन्ते कामगेषु विहंगमाः । तांश्च वैश्यगणास्मृत भावयन्ति फलार्थिनः ॥ ६५ ॥ तेषां वै मानसी कन्या विरजा नाम विश्रुता । ययातेर्जननी ब्रह्मन् महिषी नहुपस्य च ॥ ६६ ॥ त्रय एते गणाः प्रोक्ताश्चतुर्थन्तु निबोध मे । उत्पन्ना ये स्वधायान्ते सोमया वै कवेः सुताः । हिरण्यगर्भस्य सुताः शूद्रास्तान् भावयन्त्युत ॥ ६७ ॥ मानसा नाम ते लोका यत्र तिष्ठन्ति ते

और वृद्धशर्माकी पुत्रवधु है और राजर्षि महात्मा राजा दिलीप की जननी है ॥ ६१ ॥ देवयुगमें उसके वाजिमेध नामवाले महायज्ञमें प्रसन्न हुए महर्षियोंके गाथा गाई थी, कि-॥ ६२ ॥ महात्मा अग्नि और महात्मा शाण्डिल्यके जन्मको सुनकर जिन्होंने समाहित चित्तसे सत्यवान् महात्मा दिलीपको यज्ञ करते हुए देखा है वे मनुष्यभी स्वर्गको जीत लेंगे ॥ ६३ ॥ (अब तीसरे गणको कहते हैं) कर्दम प्रजापतिके सुस्वधा नाम वाले पितर है वे महात्मा द्विजश्रेष्ठ पुलहसे उत्पन्न हुए हैं ॥ ६४ ॥ ये आकाशचारी स्वर्गमें लोकोंमें अपनी इच्छानुसार रहते हैं, फलकायक वैश्यगण इनकी उपासना करते हैं ॥ ६५ ॥ उनकी मानसी कन्या विरजा नामसे प्रसिद्ध है, वह ययातिकी माता है और हे ब्रह्मन् ! वह नहुपकी पत्नी है ॥ ६६ ॥ यह तीन गण कह दिये, हे तात ! अब तुम चौथेको सुनो वे कविकी पुत्री स्वाधामें उत्पन्न हुए हैं और वे हिरण्यगर्भ (अग्नि) के पुत्र हैं और सोमया

दिति । तेषां त्रौ मानसी कन्या नर्मदा सरिताम्बरा ॥ ६८ ॥
 या आवयति भूतानि दक्षिणापथगापिनी । पुरुकुत्सस्य या पत्नी
 त्रसदस्पोर्जनन्यपि ॥ ६९ ॥ तेषामथाभ्युपगमान्मनुस्तात युगे युगे ।
 भवर्तपति आद्धानि नष्टे धर्मे प्रजापतिः ॥ ७० ॥ पितृणामादि-
 सर्गिण सर्वेषां द्विजसत्तम । तस्मादेनं स्वर्गिण आद्देवं वदन्ति
 वै ॥ ७१ ॥ सर्वेषां राजतं पात्रमथवा रजतान्वितम् । दत्तं स्वर्धा
 पुरोधाय आद्दं ग्रीणाति वै पितृन् ॥ ७२ ॥ सोमस्याप्यायनं कृत्वा

कहलाने हैं शूद्र उनकी उपासना करते हैं ॥ ६७ ॥ वे स्वर्गमें
 मानस नाम वाले लोकोंमें रहते हैं उनकी मानसी कन्या नर्मदा
 कहलानी है और वह नदियोंमें श्रेष्ठ है ॥ ६८ ॥ वह दक्षिणा-
 पथकी और वह कर प्राणियोंको पवित्र करती है, वह पुरुकुत्स
 की पत्नी है और त्रसदस्थुकी माता है ॥ ६९ ॥ हे तात ! मनु
 प्रजापति उन पितरोंको, पूज्य माननेके कारण धर्मके नष्ट होने
 पर प्रत्येक युगमें आद्दोंको प्रचलित किया करते हैं ॥ ७० ॥
 हे द्विजसत्तम ! (यम) सब पितरोंकी आदिमें उत्पन्न होते हैं,
 इस धर्मके कारण इनको आद्देव कहते हैं ये सात पितृगणोंसे
 प्रथम उत्पन्न होते हैं, इस लिये ये इनको आद्देव कहते हैं,
 तात्पर्य यह है, कि - " यमः पितृणामधिपतिः " यम पितरोंके
 अधिपति हैं, इस यमपितृत्वरूपसे सब आद्दोंके अधिपति होनेके
 कारण यह यम आद्देव कहलाने हैं) ॥ ७१ ॥ इन सब
 का चाँदीका वह चाँदीका मिला हुआ पात्र होता है 'स्वधा
 पितृभ्यः' कह कर किया हुआ आद्द पात्रोंको प्रसन्न करता
 है ॥ ७२ ॥ जो पुरुष सोमका आप्यायन करके वैरस्वत अग्नि
 का आप्यायन करता है फिर अग्निमें उदगायन करता है और
 अग्निके अभावमें जलमें उदगायन करके पितरोंको भक्तिपूर्वक
 तृप्त करता है, पितर उसको तृप्त करते हैं (अग्निमें सोमका

अग्नेर्वैवस्वतस्य च । उदगायनमप्यग्नावग्न्यभावेऽसु वा पुनः ७३
पितृन् प्रीणाति यो भक्त्या पितरः प्रीणयन्ति । तम् । यच्छन्ति
पितरः पुष्टिः प्रजाश्च विपुलास्तथा ॥ ७४ ॥ स्वर्गमारोग्यमेवाथ
यदन्वद्रपि चेत्सितम् । देवकार्यादपि मुने पितृकार्यं विशिष्यते ७५
देवतानां हि पितरः पूर्वमाप्यायनं स्मृतम् । शीघ्रप्रसादा ह्यक्रोधा
लोकस्याप्यायनं परम् ॥ ७६ ॥ स्थिरप्रसादाश्च सदा तान्ममस्यस्व
भार्गव । पितृभक्तोऽसि विपर्यं मद्भक्तश्च विशेषतः ॥ ७७ ॥
श्रेयस्तेऽयं विद्यास्यामि प्रत्यक्षं कुरु तत्र स्वयम् । दिव्यं चक्षुः
सत्विज्ञानं प्रदिशामि च तेऽनघ ॥ ७८ ॥ गतिमेतामप्रमत्तो मार्क-
ण्डेय निशामय । न हि योगगतिर्दिव्या पितृणां च परा गतिः ७९

अग्निंका और वैवस्वत यमका आप्यायन करके अर्थात् सोमाय
पितृभते स्वधा नमः, अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमः, यमाय
अङ्गिरसे स्वधा नमः इस प्रकार स्वधाके साथ कह कर होम
कर पितरोंको तृप्त करता है) उसे पितर (प्रसन्न होने पर) बहुत
सी सन्तान और पुष्टि देने हैं तथा स्वर्ग आरोग्य तथा और भी
अभीष्ट वस्तुएँ देते हैं, हे मुने ! पितृकार्य देवकार्यसे भी विशिष्ट
(श्रेष्ठ) है ॥ ७३-७५ ॥ देवताओंमें भी जो पितर हैं वे शीघ्र
ही सन्तुष्ट होजाते हैं ये तो शीघ्र ही प्रसन्न होजाते हैं, क्रोध-
रहित हैं और लोकोंको परम तृप्त रखने वाले हैं ; तात्पर्य यह
है, कि-देवता चिरकालमें प्रसन्न होते हैं अतः एव उनकी आरा-
धना करना कठिन है ॥ ७६ ॥ हे भार्गव ! उनका प्रसाद स्थिर
रहने वाला होता है, अतः तू उनको प्रणाम कर, हे विपर्यं !
तू पितृभक्त है और विशेषतः मेरा भक्त है ॥ ७७ ॥ हे अनघ !
मैं आज तेरा कन्याण करूँगा, हे निष्ठाप ! मैं तुम्हें अनुभविक
ज्ञानमय दिव्य चक्षुदेना हूँ ॥ ७८ ॥ हे मार्कण्डेय ! अब तू
श्राद्धके फलरूपमें मिलने वाली गतिको सावधान होकर देख ।

त्वद्विधेनापि सिद्धेन दृश्यते मांसचक्षुषा । स एवमुक्त्वा, देवेशो
 मामुपस्थितमग्रतः ॥ ८० ॥ चक्षुर्दत्त्वा सविज्ञानं देवनामपि दुर्ल-
 भम् । जगाम गतिमिष्टां वै द्वितीयोऽग्निरिव ज्वलन्- ॥ ८१ ॥
 तन्निबोध कुरुश्रेष्ठ यन्मयाऽग्नीनिशामितम् । प्रसादात्तस्य देवस्य
 दुर्वैयं भुवि मानुषैः ॥ ८२ ॥

इति श्रीमहाभारतेऽग्निलेखे हरिवंशे हरिवंशपर्वाणि

अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

मार्कण्डेय उवाच ॥ आसन् पूर्वयुगे तात भरद्वाजात्मजा
 द्विजाः । योगधर्ममनुमाप्य भूष्ठा दुश्चरितेन वै ॥ १ ॥ अपभू-
 मनुमाप्ता योगधर्मापचारिणः ॥ महतः सरसः पारे मानसस्य वि-
 संज्ञिताः ॥ २ ॥ तपेवार्थमनुभ्याते । नष्टमपि वव मोहिताः । अप्राप्य
 योगन्ते सर्वे संयुक्ता कालधर्मणा ॥ ३ ॥ ततस्ते योगविभक्ता

तुभसा सिद्ध पुरुष भी मांसमय चक्षुसे योगियोंकी दिव्यगतिसे
 और पितरोंकी परागतिको नहीं देख सकता, वह देवेश, सामने
 खड़े हुए मुझसे इसप्रकार कहकर और मुझे विज्ञानसहित देव-
 दुर्लभ नेत्रों देकर अपनी इन्द्रगतिसे द्वितीय - अग्नि की समान
 दमदमाते हुए चले गए ॥ ७६-८१ ॥ हे, कुरुश्रेष्ठ ! उन देवताकी
 कृपासे मैंने जो घटना देखी थी, उसको तुम । सुनो पृथ्वीमें
 उस घटनाका देखना मनुष्योंके लिये बड़ा कठिन है ॥ ८२ ॥
 अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८ ॥

मार्कण्डेयजीने कहा, कि-हे तात ! पूर्वयुगमें भरद्वाजके
 ब्राह्मण पुत्र योगधर्मका सेवन करते २ (योगविरोधी कर्मरूप)
 दुश्चरित करके भूष्ण होगए थे ॥ १ ॥ वे योगधर्मका उल्लंघन
 करनेके अचेतनसे हो बड़े भारी मानसगोचरके किनारे पर
 गिरे ॥ २ ॥ वे बड़े हुए पुरुषकी समान मोहित हो रहे थे और
 उस योगविषयका चिन्तन करते २ ही योगको न पाकर गए

देवेषु सुचिरोपिताः।जाताः कौशिकदायादाः कुरुक्षेत्रे नरर्षभाः ४
 हिसया विहरिष्यन्तो यमं पितृकुलेन वै । ततस्ते पुनराजातिं भृष्टाः
 प्राप्स्यन्ति कुत्सिताम् ॥ ५ ॥ तेषां पितृप्रसादेन पूर्वजातिकृतेन
 वै । स्मृतिरुत्पत्स्यते प्राप्य तां तां जातिं जुगुप्सिताम् ॥ ६ ॥ ते
 धर्मचारिणो नित्यं भविष्यन्ति समाहिताः । ब्राह्मण्यं प्रति-
 लप्स्यन्ति ततो भूयः स्वकर्मणा ॥ ७ ॥ ततश्च योगं प्राप्स्यन्ति
 पूर्वजातिकृतं पुनः । भूयः सिद्धिमनुप्राप्ताः स्थानं प्राप्स्यन्ति
 श्लाश्वतम् ॥ ८ ॥ एवं धर्मं च ते बुद्धिर्भविष्यति पुनः पुनः ।
 योगधर्मं च नितरां प्राप्स्यसे बुद्धिमृत्तमाम् ॥९॥योगो हि दुर्लभो
 नित्यमल्पप्रज्ञैः कदाचन । लब्ध्वापि नाशयन्त्येनं व्यसनैः कटुता-
 मिताः । अयमेष्वेव वर्तन्ते प्रार्दयन्ते गुरुनपि ॥ १० ॥ याचन्ते

गए ३ तब वे योगभ्रष्ट देवताओंमें चिरकाल तक निवास करके
 कुरुक्षेत्रमें कौशिकके नरश्रेष्ठ पुत्र बन कर उत्पन्न हुए (आशय
 यह है कि-योगभ्रष्ट पुरुष देवलोकको ही जाते हैं, उनकी और
 कोई गति नहीं होती है) ॥४॥ जो पितरोंके धर्मके लिये हिंसा-
 करते हैं तो वे भ्रष्ट होकर कुत्सित जातिमें उत्पन्न होते हैं ॥५॥
 परन्तु पूर्वजन्मके पितरोंकी कृपाके कारण मत्स्येक जुगुप्सित
 (निन्दित) जातिमें उत्पन्न होने पर भी उनको पूर्वजन्मकी स्मृति
 बनी रहती है ॥ ६ ॥ वे उस जन्ममें साव गान चित्तवाले और
 धर्माचरण करनेवाले होते हैं, तदनन्तर वे अपने कर्मसे ब्राह्म-
 णत्वको पाते हैं ॥ ७ ॥ उस जन्ममें वे अपने पूर्वजन्मके योगको
 पाते हैं और फिर सिद्धिको पाकर श्लाश्वत स्थानको पाते हैं ८
 इसीप्रकार तेरी भी बुद्धि बारम्बार धर्मपरायण होगी, और तू
 योगधर्मकी उत्तम बुद्धिको पावेगा ॥९॥ अल्पबुद्धि मनुष्योंको
 योगसिद्धि मिलना दुर्लभ है उनको योगसिद्धि प्राप्त भी होजाती
 है तब वह मृगयो आदि व्यसनोसे कटु बन कर उसका नाश

न त्वयाच्यानि रक्षन्ति शरणागतान् । नावमन्यन्ति कृपणान्
 मायन्ते न धनोष्मणा ॥ ११ ॥ युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टाः
 स्वकर्मसु । ध्यानाध्ययनयुक्ताश्च नष्टानुगवेपिणः ॥ १२ ॥
 नोपभोगरता नित्यं न मांसमधुभक्षणान् । न च कामपरा नित्यं
 न विषादसेविनस्तथा ॥ १३ ॥ नाऽन्यार्थसंकेतसंक्ता नालस्यो-
 पहतास्तथा । नात्यन्तमानससक्ता गोष्ठीष्वनिरतास्तथा ॥ १४ ॥
 प्राप्नुवन्ति नरा योगं योगो वै दुर्लभो भुवि । प्रशान्ताश्च जित
 क्रोधाः मानाहकारवर्जिताः ॥ १५ ॥ कल्याणभाजनं ये तु ते
 भवन्ति यतव्रताः । एवं विरास्तु ते तात ब्राह्मणा ब्रह्मवस्तदा १६
 स्मरन्ति ह्यात्मनो दोषममादकृतमेव तु । ध्यानाध्ययनयुक्ताश्च

कर डालते हैं और शुभ्रोंसे द्रोह करने लगते हैं ॥ १० ॥
 वे अमाच्य (स्त्री आदि) से याचना नहीं करते हैं और शर-
 णागतोंकी रक्षा करते हैं और वे कृपणपुरुषोंका अपमान नहीं
 करते हैं तथा धनकी गर्मीसे मदमत्त नहीं होते हैं ॥ ११ ॥ उनका
 आहार विहार शाश्वतशुद्ध होता है और वे अपने कर्मोंमें शास्त्र-
 अनुसार चेष्टा करते हैं और ध्यान तथा अध्ययनपरायण रहते
 हैं और नष्ट हुए वस्तुको पानेके लिये (चोर आदिको) नहीं
 दूढ़ते हैं ॥ १२ ॥ वे सदा भोगमें ही लीन नहीं रहते हैं और
 सर्वदा मधु मांसका भी भक्षण नहीं करते हैं और सर्वदा काम-
 परायण भी नहीं रहते हैं और सर्वदा विगोंका असेवन भी नहीं
 करते हैं ॥ १३ ॥ वे ग्राम्यगोष्ठीमें आसक्त नहीं रहते हैं और
 आलस्यमें भी नहीं पड़े रहते हैं और सदा मानमें भी नहीं भरे
 रहते हैं और आत्मपीमासामें सदा लगे रहते हैं १४ प्रशान्त आत्मा
 बाले और क्रोधको जीतने वाले मान तथा अहंकाररहित मनुष्यों
 को योगसिद्धि मिलती है, पृथिवीमें योगप्राप्ति अतिदुर्लभ है १५
 कल्याणके पात्र मनुष्य यतव्रत होते हैं; हे तात ! वे इस प्रकार

शान्ते वर्त्मनि संस्थिताः ॥१७॥ योगधर्माद्धि धर्मज्ञ न धर्मोऽस्ति
 विशोपवान् । वरिष्ठः सर्वधर्माणा तमेवाचर भार्गव ॥ १८ ॥
 कालस्य परिणामेन लब्धाहारो जितेन्द्रियः । तत्परः प्रयतः श्राद्धी
 योगधर्ममवाप्स्यसि ॥ १९ ॥ इत्युक्त्वा भगवान् देवस्तत्रैवान्तर-
 धीयत । अष्टादशैव वर्षाणि त्वेकाहमिव मेऽभवत् ॥२०॥ उपा-
 सतस्तं देवेशं वर्षोऽष्टादशैव मे । प्रसादात्तस्य देवस्य न ग्लानि-
 रभवत्तदा ॥ २१ ॥ न ह्युत्पिपासे कालं वो जानामि स्म तदा-
 ऽनघ । पश्चाच्छिष्यसकाशात्तु कालः संविदितो मया ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

पितृकण्डे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

मार्कण्डेय उवाच । तस्मिन्नन्तर्हिते देववचनात्तस्य वै प्रभोः।

के ब्राह्मण हुए थे, ॥ १६ ॥ वह अपने प्रमादवश हुए दोषका
 स्मरण करते ही रहते थे और ध्यान और अध्ययनमें परायण
 रह कर शान्तमार्गमें स्थित रहते थे ॥ १७ ॥ हे धर्मज्ञ ! योग-
 धर्मसे विशिष्ट कोई धर्म नहीं है, हे भार्गव ! वही धर्म सबसे
 श्रेष्ठ है, अतः तू उसका ही आचरण कर ॥ १८ ॥ तू यदि
 श्रद्धापूर्वक योगधर्ममें परायण रह कर हलका भोजन करताहुआ
 जितेन्द्रिय रहेगा तो तू कालक्रमसे योगधर्मको पावेगा ॥ १९ ॥
 इतनी बात कह कर वह भगवान् तहाँ ही अन्तर्धान होगए,
 ये अठारह वर्ष मुझे एक दिनकी समान व्यतीत होगए ॥२०॥
 और अठारह वर्ष तक उन देवकी उपासना करते रहने पर भी
 उन देवकी उपासना करनेके कारण मुझे कुछ भी ग्लानि नहीं
 मालूम हुई ॥ २१ ॥ हे अनघ ! मुझे भूख प्यास और समय
 आदि कुछ न मालूम हुआ, बादसे शिष्यसे मुझे समय मालूम
 हुआ था ॥ २२ ॥ उन्नीसवें अध्याय समाप्त ॥१६॥

मार्कण्डेयजीने कहा, कि उन देवके अन्तर्धान होने पर, उन

चक्षुर्दिव्य सविज्ञान मादुरासीत्तदा मम ॥ १ ॥ ततोऽहं तान-
 पश्य वै ब्राह्मणान् कौशिकत्मात्मान् । आपणोयः कुरुक्षेत्रे यानु
 वाच विशुर्मम ॥ २ ॥ ब्रह्मदत्तोऽभद्राजा यस्तथा सप्तमो द्विजः ।
 पितृवर्तीति विख्यातो नाम्ना शीलेन कर्मणा ॥ ३ ॥ शुकस्य
 कन्या कृत्वी तं जनयामास पार्थिवम् । अणुहात् पार्थिवश्रेष्ठात्
 कापिल्ये नगरोत्तमे ॥ ४ ॥ भीष्म उवाच । यथोक्ता महाभागो
 मार्कण्डेयो महातपाः । तस्य वंशमहं राजन् कीर्तिमिष्यामि
 तच्छृणु ॥ ५ ॥ युधिष्ठिर उवाच । अणुहः कस्य वै पुत्रः कस्मिन्
 काले बभूव ह । राजा धर्मधृतां श्रेष्ठो यस्य पुत्रो महयशाः ॥ ६ ॥
 ब्रह्मदत्तो नरपतिः किंकीशः स बभूव ह । कथं च सप्तमस्तेषां स
 बभूव नराधिपः । न ह्यल्पवीर्याय शुको भगवत्कलोरूपूजितः ।
 कन्यां मादायत्रोगात्मा कृत्वी नीर्निमती प्रभुः ॥ ७ ॥ एतदिच्छा-

प्रभु के बचनसे मेरे दिव्य विज्ञानमय नेत्र प्रकट हो गयी ॥ १ ॥
 हे गङ्गापुत्र ! तब मन सनत्कुमारजीने जिनका पणन किया था
 उन कौशिकपुत्र ब्राह्मणोंको कुरुक्षेत्रमें देखा २ उन कुशिकात्मजों
 में जो सातवों पितृवर्ती नामक द्विज था, वह अपने शील और
 कर्मसे (सातवें जन्ममें) ब्रह्मदत्त नामक राजा हुआ ॥ ३ ॥
 कापिल्य नामक श्रेष्ठ नगरमें उस राजाको अणुह नाम वाले श्रेष्ठ
 राजासे शुककी कन्या कृत्वीने उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ भीष्मजीने
 कहा, कि-हे राजन् ! महातपस्वी मार्कण्डेयजीके कथनानुसार
 मैं उस राजाके वंशका कीर्तन करता हूँ ॥ ५ ॥ युधिष्ठिरने कहा,
 कि जिसका पुत्र महायशस्वी (ब्रह्मदत्त) था वह धर्मधारियोंमें
 श्रेष्ठ महायशस्वी अणुह किसका पुत्र था और वह किस समय
 हुआ था ॥ ६ ॥ राजा ब्रह्मदत्त कसा पराक्रमी था और वह
 राजा उनमें सप्तम क्यों हुआ ॥ ७ ॥ लोकोंमें पूजित योगकी मूर्ति
 भगवान् शुक अपनी कीर्तिमती कृत्वी नामवाली कन्याको किसी

महं श्रोतुं विस्तरेण महाद्युते । ब्रह्मदत्तस्य चरितं तद्भवान्
 वक्तुमर्हसि ॥ ६ ॥ यथा च वर्तमानास्ते संसारे च द्विजातयः ।
 मार्कण्डेयेन कथितास्तद्भवान् प्रवर्षीतु ने ॥१०॥ भीष्म उवाच ।
 प्रनीपस्य तु राजर्षेस्तुल्यकालो नरसन्निधः । पितामहस्य मे राजन्
 वभूवेति मया श्रुतम् ॥११॥ ब्रह्मदत्तो महाभागो योगी राजर्षि-
 सत्तमः । श्रुतज्ञः सर्वभूतानां सर्वभूतहिते रतः ॥१२॥ सन्वाऽऽसा
 गालवो यस्य योगाचार्यो महायशः । शिष्यामुत्पाद्य तपसा क्रमो
 येन प्रवर्तितः । कण्डरीकथ्य योगात्मा तस्यैव सचिवो महान् १३
 ज्ञात्यन्तरेषु सर्वेषु सखायः सर्व एव ते । सप्तजातिषु सप्तैव वभूवु-
 रभिर्नाजसः । यथोवाच महाभागो मार्कण्डेयो महातपाः ॥१४॥

अन्यरीर्य मनुष्यको तो दे ही नहीं सकते थे ॥ ८ ॥
 हे महाकान्तिमान् ! मैं ब्रह्मदत्तके चरित्रको सुनना चाहता हूँ,
 उसको आप कहिये ॥ ६ ॥ और मार्कण्डेयजीने उन द्विजा-
 तियोंके संसारमें विचरण करनेका वृत्तान्त जिसप्रकार कहा हो
 उसको उसी प्रकार आप मुझसे कहिये ॥ १० ॥ भीष्मजीने
 कहा, कि-हे राजन् ! मैंने सुना है, कि मेरे पितामह राजर्षि
 प्रनीपके समय ही वह राजा हुआ था ॥ ११ ॥ राजाओं
 में श्रेष्ठ महाभाग ब्रह्मदत्त योगी था और सप्त भूतोंके [नत्य]
 तत्त्वको जाननेवाला था और सप्त प्राणियोंके हितमें परायण
 रहता था ॥१२॥ योगाचार्य महायशस्वी गालव इस (ब्रह्मदत्त)
 के पित्र ये उन्हींने शिष्या [वेदांग] को उत्पन्न करके और
 क्रम [संहिताके पदों] को चलाया था उसके योगात्मा मन्त्रीका
 नाम कण्डरीक था । १३ ॥ महातपस्वी महाभाग मार्कण्डेयने
 जिसप्रकार कहा था उसी प्रकार ये सात सातों जातियोंमें
 उत्पन्न हुए ये और ये अप्रित योज गते भिन्न भिन्न जातियोंमें
 उत्पन्न होने पर भी परस्पर मित्रता करने थे ॥ १४ ॥

तस्य वंशमहं राजन् कीर्तयिष्यामि तच्छृणु । ब्रह्मदत्तस्य पौराणां
 पौरवस्य महात्मनः ॥ १५ ॥ बृहत्तनस्य दायादः सुहोत्रो नाम
 धार्मिकः । सुहोत्रस्यापि दायादो हस्ती नाम रभूव ह ॥ १६ ॥
 तेनेदं निर्मितं पूर्वं, हस्तिनापुरमुत्तमम् । हस्तिनाथापि दायादा-
 स्ययः परमधार्मिकाः ॥ १७ ॥ अजमीढो द्विमीढश्च पुत्रमीढस्तथैव
 च । अजमीढस्य भूमिर्ना जज्ञे बृहदिपुत्रं । बृहद्भनुबृहदिपोः
 पुत्रस्तस्य महायशाः ॥ १८ ॥ बृहद्भमेति विख्यातो राजा परम-
 धार्मिकः । सत्यजित्तनयस्तस्य विश्वजित्तस्य चात्मजः ॥ १९ ॥
 पुत्रो विश्वजित्थापि सेनजित् पृथिवीपतिः । पुत्राः सेनजित्-
 थासश्चत्वारो लोकविभुनाः ॥ २० ॥ रुचिरः श्वेतकेतुश्च महि-
 स्नारस्तथैव च । वत्सरचावन्तको राजा यस्यैते परिवत्सकाः २१
 रुचिरस्य तु दायादः पृथुसेनो महायशाः । पृथुसेनस्य पारस्तु
 पारान्नीपस्तु जज्ञिवात् ॥ २२ ॥ नीपस्यैकशतं तात पुत्राणाम-

हे राजन् ! मैं नगरनिवासियोंमें महात्मा ब्रह्मदत्तके वंशको रहता
 हूँ उसको तुम सुनो ॥ १५ ॥ बृहत्तनका सुहोत्र नामक धार्मिक
 पुत्र हुआ और सुहोत्रके भी हस्ती नामक पुत्र हुआ ॥ १६ ॥
 उसने ही इस उत्तम हस्तिनपुरको रचा है, हस्तिके भी परम
 धार्मिक अजमीढ, पुष्पीढ और द्विमीढ नामक तीन पुत्र उत्पन्न
 हुए, हे नृप ! अजमीढसे भूमिमें बृहदिपु उत्पन्न हुआ बृह-
 दिपुके बृहद्भनु नामक महायशास्वी पुत्र हुआ ॥ १८ ॥ वह परम-
 धर्मोत्साह राजा बृहद्भर्मा नामसे (भी) प्रसिद्ध था, उसका पुत्र
 सत्यजित् हुआ, उसका तनय विश्वजित् हुआ ॥ १९ ॥ विश्व-
 जित्के राजा सेनजित् नामक पुत्र हुआ, सेनजित्के संसारमें
 प्रसिद्ध चार पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २० ॥ राजा (सेनजित्) अवन्तीमें
 रहता था, उसके रुचिर श्वेतकेतु महिषार और वत्स नामक
 (चार) पुत्र थे ॥ २१ ॥ रुचिरके पृथुसेन नामक महायशास्वी

मितौजसाम् । महारथानां राजेन्द्र शूराणां बाहुशालिनाम् ।
नीपा इति समाख्याता राजानः सर्व एव ते ॥ २३ ॥ तेषां
वंशकरो राजा नीपानां कीर्तिवर्धनः । कांपिष्ये समरो नाम
सचेष्टममरोऽभवत् ॥ २४ ॥ समरस्य परः पारः सदश्व इति ते
त्रयः । पुत्राः परमधर्मज्ञाः पारपुत्रः पृथुर्वर्मा ॥ २५ ॥ पृथोस्तु
सुकृतो नाम सुकृतेनेह कर्मणा । जज्ञे सर्वगुणोपेतो विभ्राजस्तस्य
चात्मजः ॥ २६ ॥ विभ्राजस्य तु पुत्रोऽभूदणुहो नाम पार्थिवः ।
वर्मा शुकस्य जामाता कृत्वीभर्ता महायशाः ॥ २७ ॥ पुत्रोऽणु-
हस्य राजर्षिर्ब्रह्मदत्तोऽभवत् प्रभुः । योगात्मा तस्य तनयो विश्व-
क्सेनः परन्तपः ॥ २८ ॥ विभ्राजः पुनरायातः स्वकृतेनेह कर्मणा ।
ब्रह्मदत्तस्य पुत्रोऽन्यः सर्वसेन इति श्रुतः ॥ २९ ॥ चक्षुपी तस्य

पुत्र हुआ, पृथुसेनके पार और पारसे नीप उत्पन्न हुआ ॥ २३ ॥
हे तात ! नीपके अमित पराक्रमी एक सौ पुत्र थे हे राजेन्द्र !
वे सब महारथी शूर थे और भुजबलशाली थे, वे सब राजे नीप
कहलाते थे ॥ २३ ॥ कांपिष्यमें उन नीपोंके वंशकरो चलाने
वाला कीर्तिवर्धन समर नामक राजा हुआ वह युद्धमें सदा सचेष्ट
रहता था ॥ २४ ॥ समरके पर पार और सदश्व नामक तीन
पुत्र हुए, ये परम धर्मज्ञ थे, पारके पृथु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ २५
पृथुके पुण्यकर्मके कारण उसके सुकृत नामक सर्वगुणसम्पन्न
पुत्र हुआ, उसके विभ्राज नामक पुत्र हुआ ॥ २६ ॥ विभ्राजके
अणुह नामक पुत्र हुआ, वह महायशस्वी कृत्वीका भर्ता और
शुकका जामाता बन कर शोभा पाने लगा ॥ २७ ॥ अणुके प्रभु
राजर्षि ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ और उसके योगात्मा परन्तप
पुत्रका नाम विश्वक्सेन हुआ ॥ २८ ॥ विभ्राज अपने कर्मके
कारण ब्रह्मदत्तका पुत्र बन कर फिर उत्पन्न हुआ था, ब्रह्म-
दत्तका दूसरा पुत्र सर्वसेन नामसे प्रसिद्ध हुआ २९ हे राजन् !

निर्भिन्ने पत्निएषा पूजनीयया । सुचिरोपितया राजन् ब्रह्म
दत्तस्य वेशमनि ॥३०॥ अथास्य पुत्रस्त्वपरो ब्रह्मदत्तस्य जज्ञि-
वान् । विष्वक्सेन इति ख्यातो महाबलपराक्रमः ॥३१॥ विष्व-
क्सेनस्य पुत्रोऽभूद्वसेनो महीपतिः । भल्लाटोऽस्य कुमारोऽभू-
द्राधेयेन इतः पुरा ॥ ३२ ॥ दण्डसेनात्मजः शूरो महात्मा कुल-
वर्धनः । भल्लाटपुत्रो दुर्बुद्धिरभवच्च युधिष्ठिर ॥३३॥ स तेषा-
मभवद्राजा नीपानामन्तकृन्तुषु । उग्रायुवेन यस्यार्थे सर्पो नीपा-
विनाशिताः । उग्रायुधो मदोत्सिक्तो मया विनिहतो युधि । दर्पा-
न्वितो दर्परुचिः सततं चानये रतः ॥ ३४ ॥ युधिष्ठिर उवाच ।
उग्रायुधः कस्य सुतः कस्मिन् वंशेऽथ जज्ञिवान् । किमर्थं चैव
भवता निहतस्तद्ब्रवीहि मे ॥ ३५ ॥ भीष्म उवाच । अजमीढस्य
दायादो विद्वान्नाजा यवीनरः । धृतिमांस्तस्य पुत्रस्तु तस्य सत्य-
ब्रह्मदत्तके चरमे निरकालसे रहने वाली पूजिनी चिह्नियाने उसके
दोनों नेत्रोंको फोड़ डाला था इसके अनन्तर ब्रह्मदत्तके विश्वक-
सेन (विभ्राजावतार) नामक दूमरा पुत्र हुआ, वह महाबली
और महापराक्रमी प्रसिद्ध था ३१ विश्वकसेनका दण्ड नामक
पुत्र हुआ इसका भल्लाट नामक पुत्र हुआ उसको पहिले कण-
ने युद्धमें मार डाला था ॥ ३२ ॥ दण्डसेनका पुत्र शूरीर था
महात्मा था और कुलको बढ़ानेवाला था और हे युधिष्ठिर !
भल्लाटका पुत्र तो दुर्बुद्धि निकला ३३ हे राजन् ! वह राजा
नीपोंका नाश करने वाला हुआ, उसने उग्रायुधके लिये सब
नीपोंको नष्ट कर डाला था ३४ उस अनीतिमें लगे रहने वाले
और दर्पमें रुचि रखने वाले दर्पवान् मदोत्सिक्त उग्रायुधको
मैंने युद्धमें मार डाला था ३५ युधिष्ठिरने कहा, कि उग्रायुध
किसका पुत्र था कौनसे वंशमें उत्पन्न हुआ था, और आपने
उसको किस लिये मार डाला था, यह बताइये ३६ भीष्मजीने

घृतिः सुतः ॥ ३७ ॥ जज्ञे सत्यघृतेः पुत्रो दृढनेमिः, प्रनापवान् ।
 दृढनेमिनुतश्चापि सुधर्मा नाम पार्थिवः ॥ ३८ ॥ आसीत् सु-
 धर्मणः पुत्रः सार्वभौमः प्रजेश्वरः । सार्वभौम इति ख्यातः पृथि-
 व्यामेकराड्विभुः ॥ ३९ ॥ तस्यान्ववाये महति महान् पौरव-
 नन्दनः । महतश्चापि पुत्रस्तु राजा रुक्मरथः स्मृतः ॥ ४० ॥
 पुत्रो रुक्मरथस्यापि सुपार्वो नाम पार्थिवः । सुपार्वतनय-
 श्चापि सुमतिर्नाम धार्मिकः ॥ ४१ ॥ सुमतेरपि धर्मात्मा सन्न-
 तिर्नाम वीरवान् । तस्य वै सन्नते पुत्रः कृजो नाम महाबलः ४२
 शिष्यो हिरण्यनाभस्य कौशलस्य महात्मनः । चतुर्विंशतिथ्या
 तेन स प्राच्याः सामसंहिताः ॥ ४३ ॥ स्मृतास्ते नाच्यसामानः
 कार्तियो नाम सामगाः । कार्तिख्यायुधः सोऽथ वीरः पौरव-
 नन्दनः ॥ ४४ ॥ बभूव येन विक्रम्य पृपतस्य पितामहः । नीपो

कहा, कि अजमीठके विद्वान् पुत्रका नाम राजा यवीनरथा,
 उसका पुत्र सत्यघृति हुआ ॥ ३७ ॥ सत्यघृतिके दृढनेमि नामक
 प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ दृढनेमिके पुत्रका राजा सुधर्मा नाम
 था ३८ सुधर्माके सब भूमिका अधिपति प्रजाको ईश्वर पुत्र था,
 वह पृथिवीमें सार्वभौम नामसे प्रसिद्ध था और वह पृथिवीमें एक
 राजा था ३९ उसके बड़े भारी वंशमें पौरवोंको प्रसन्न करने
 वाला महत्का पुत्र राजारुक्मरथ भी उत्पन्न हुआ था ४० पुत्र
 रुक्मरथके पुत्रका राजा सुपार्व नामक पुत्र हुआ, सुपार्वके
 सुमति नामक, धार्मिक पुत्र हुआ ॥ ४१ ॥ सुमतिके भी धर्मात्मा
 सन्नति नामक वीरवान् पुत्र उत्पन्न हुआ, उस सन्नतिके कृत
 नामक महाबली पुत्र हुआ ॥ ४२ ॥ वह कौशलदेशी महात्मा
 हिरण्यनाभका शिष्य था, उसने प्राचीन सामसंहिताके चौबीस
 विभाग किये थे ४३ वे प्राच्य सामकहलाते हैं और उन सामों
 का गान करने वाले कार्ति कहलाते हैं वीर पौरवनन्दन उग्र-

नाम महातेजाः पञ्चालाधिपतिर्हतः ॥ ४५ ॥ उग्रायुधस्य दायादः
 क्षेम्यो नाम महायशः । क्षेम्यात् सुवीरो नृपतिः सुवीरात्तु नृप-
 ज्ञयः ॥ ४६ ॥ नृपज्ञयाद्गुरुरथ इत्येते पौरवाः स्मृताः । सत्प्राप्यु-
 ग्रायुःस्तात दुर्बुद्धिरभवत्तदा ॥ ४७ ॥ प्रवृद्धचक्रो बलवान्नीपाति-
 करणो महान् । स दर्पपूर्णो हत्वाऽऽर्जो नीपानन्यांश्च पार्थिवान् ४८
 पितर्युपरते मह्यश्चानयामास कित्तिवपम् । माममात्यैः परिवृत्तं
 शयानं धरणीतले ॥ ४९ ॥ उग्रायुधस्य राजेन्द्र दूतोऽभ्येत्य वचो-
 ऽब्रवीत् । अथ त्वं जननी भीष्म गन्धकाली यशस्विनीम् । स्त्रीरत्नं
 मम भार्गव्यं गयच्छ कुहपुङ्गव ॥ ५० ॥ एवं राज्यं च ते स्फीर्त
 धनानि त्व न संशयः । महास्यामि यथाकाममहं वै रत्नभाग
 युध कृत्वा पुन हुआ, उसने पराक्रम करके पञ्चालोंके स्वामी
 पृथत (दुपद) के पितामह महातेजस्वी नीपको हठात्
 मार डाला था ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ उग्रायुधके क्षेम्य नामक महा-
 यशस्वी पुत्र हुआ, क्षेम्यके सुवीर नामक राजा हुआ, सुवीरके
 नृपज्ञय नामक पुत्र हुआ ४६ नृपज्ञयके गुरुरथ हुआ ये पौरव
 वंशयोका कीर्तन कर दिया, हे तात ! वह उग्रायुध दुर्बुद्धि
 निरूला ४७ उस बलवानका चक्र चल रहा था, तब उसने नीपोंका
 नाश कर डाला था, वह नीपोंका तथा दूसरे राजाओंका युद्धमें
 बधकर ॥ ४८ ॥ जिस समय मेरे पिता मर गए थे, और मैं
 पृथ्वी पर शयन कर रहा था तथा मन्त्री मेरे चारों ओर बैठे थे
 तब उसने मुझसे वाहियात (कुत्सित) बात कही थी ॥ ४९ ॥
 हे राजेन्द्र ! उग्रायुधके दूतने मेरे पास आकर कहा, कि-हे पुरु-
 पुंगव भीष्म ! अब तुम स्त्रियोंमें रत्नरूप गन्धकाली नामवाली
 अपनी यशस्विनी माताको मेरी भार्या बनानेके लिये देदो ५०
 यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमको इच्छानुसार निशात राज्य
 और धन दूंगा, इसमें तुम कुछ संदेह न रखना, क्योंकि मैं

भुवि ॥ ५१ ॥ मम प्रज्वलितं चक्रं निशम्येदं सुदुर्जयम् । शत्रवो
 विद्रवन्त्यार्जो दर्शनादेव भारत ॥५२॥ राष्ट्रस्येच्छसि चेत्स्वस्ति
 पाणानां वा कुलस्य वा । शासने मम तिष्ठस्व न हि ते शान्ति-
 रन्यथा ॥५३॥ अथः प्रस्तारशयने शयानस्तेन चोदितः । दूता-
 तर्हितमेतद्वै वाक्यमग्निशिखोपमम् ॥ ५४ ॥ ततोऽहं तस्य दुर्बुद्धे-
 विज्ञाय मतमच्युत । आज्ञापयं वै संग्रामे सेनाध्यक्षांश्च सर्वशः ५५
 विचित्रवीर्यं बालं च मदुपाश्रयमेव च । वृष्ट्वा क्रोधपरीतात्मा युद्धा-
 यैव मनो दधे ॥ ५६ ॥ निगृहीतस्तदाहं तैः सचिवैर्मन्त्रकोविदैः ।
 ऋत्विग्भिर्वेदकल्पैश्च सुहृद्भिश्चार्थदर्शिभिः ॥ ५७ ॥ स्निग्धैश्च
 शास्त्रविद्भिश्च संयुगस्य निवर्तने । कारणं आवितथास्मि युक्त-

पृथ्वीमें रत्नोंको भोगने वाला हूँ (अत एव तुम्हें गन्धकाली-
 रूप स्त्रीरत्न मेरे अर्पण करदेना चाहिये) ॥ ५१ ॥ शत्रु मेरे
 इस दुर्जय प्रज्वलित चक्रको देखते हैं तो युद्धमें इसका दर्शन
 करतेही भाग जाते हैं ॥ ५२ ॥ यदि तू अपने माणोंको और
 राज्यकी स्वस्ति (खैरियत) चाहता है, तो मेरी आज्ञाको
 मान ले, नहीं तो तू चैनसे नहीं बैठ सकेगा ॥ ५३ ॥ जब मैं
 नीचे कुशाओं पर सो रहा था उस समय उमने दूतसे यह अग्नि
 की लपटनी समान बात कहलाई थी ॥ ५४ ॥ हे अच्युत ! तब
 मैंने उस दुर्बुद्धिके अभिप्रायको जान कर अपने सेनापतियोंको
 सब प्रकारसे संग्राम करनेकी आज्ञा दी ॥ ५५ ॥ और विचित्र-
 वीर्य मेरे आश्रयसे रहता है तथा यह बालक (होनेके कारण युद्ध
 नहीं कर सकता इस बात) को देख कर क्रोधमें भर मैंने स्वयं
 ही युद्ध करनेका विचार किया ॥ ५६ ॥ उस समय सम्पति
 देनेमें चतुर मन्त्री वेदकी समान ऋत्विक् तत्त्वदर्शी मिन और
 शास्त्रवेत्ता स्नेही पुरुष मुझे युद्ध करनेसे रोकने लगे, और
 हे निष्पाप ! उन्होंने मुझे इसका उचित कारण भी बताया

रूपं तदाऽनय ॥ ५८ ॥ मन्त्रिण ऊचुः । महत्तचक्रः पापोऽसौ
 त्वं चाशौचगतः प्रभो । न जैपः प्रथमः कृष्णो युद्धं नाम कदा-
 चन ॥ ५९ ॥ ते वयं सामपूर्वं वै दानं भेदं तथैव च । प्रयोच्या-
 मस्ततः शुद्धो देवतान्यभिवाच्य च ॥ ६० ॥ कृतस्वस्त्ययनो विपै-
 र्हुत्वाऽग्नीनर्च्यं च द्विजान् । ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः प्रयास्यसि
 जगाम वै अस्त्राणि न प्रयोक्ष्यन्ति न प्रवेश्यश्च संगरः । आशौचे
 वर्तमाने तु वृद्धानामिति शासनम् ॥ ६२ ॥ सामदानादिभिः पूर्व-
 मपि भेदेन वा ततः अत इनिष्यसि विक्रम्य शम्बरं मघवानिव दक्ष
 प्राज्ञानां वचनं काले वृद्धानां च विशेषतः श्रोतव्यमिति तच्छ्रुत्वा
 निवृत्तोऽस्मि नराणिप ॥ ६४ ॥ ततस्तैः संक्रमः सर्वैः प्रयुक्तः

था ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ मंत्रियोंने कहा, कि-हे प्रभो ! उसका चक्र
 तो चल रहा है और आपको आशौच लग रहा है अतः यह युद्ध
 का प्रथम कृष्ण कभी नहीं माना । जासूकता (अर्थात् उन्मूल्य
 प्रवृत्ति वालेका और शास्त्रानुसार चलने वालेका लड़ना ही मुख्य
 फतेव्य नहीं है) ॥ ५९ ॥ अत एव हम उसको पहिले साम दान
 और भेदसे समझावेंगे, तब तक आप शुद्ध होजायेंगे फिर आप
 देवताओंको प्रणाम करके, विप्रोंसे स्वस्तिवाचन करा कर अग्नि
 और देवताओंकी पूजा कर, ब्राह्मणोंकी आज्ञा होने पर विजय
 के लिये चलना ॥ ६० ॥ ६१ ॥ वृद्धोंका कथना है, कि-जब
 आशौच चल रहा हो, उस समय अस्त्रोंका प्रयोग नहीं करना
 चाहिये और युद्धमें प्रवेश भी नहीं करना चाहिये ॥ ६२ ॥
 इसके अनन्तर आप साम दान भेदसे इसको बशमें करिये (ऐसे
 नहीं माने) तो जैसे इन्द्रने शम्बरासुरको मार डाला था, इसप्रकार
 इसके पराक्रम करके मार डालना ॥ ६३ ॥ समय आने पर
 बुद्धिमानोंकी और वृद्धोंकी बातोंको विशेषरूपसे सुनना चाहिये
 यह विचार कर दे राजन । मैं रुक गया ॥ ६४ ॥ इसके उप-

शास्त्रकोविदैः । तस्मिन्काले कुरुश्रेष्ठ कर्म चारव्यमुत्तमम् ॥६५॥
 सं सामादिभिरेवादावुपायैः प्राज्ञचित्तितैः । अनुनीयमानो दुर्बुद्धि-
 रनुनेतुं न शक्यते देवप्रवृत्तंतस्य तच्चक्रमधर्मनिरतस्य वै । परं-
 दाराभिलाषेण सद्यस्तात निवर्तितम् ॥६७॥ तत्त्वहं तस्य जाने-
 तन्निवृत्तं चक्रमुत्तमम् । हतं स्वकर्मणा तं तु पूर्वं सद्भिश्च निन्दि-
 तम् ॥ ६८ ॥ कृतशौचः शरी चापी रथी निष्क्रम्य वै पुरात् ।
 कृतस्वस्त्ययनो विप्रैः प्रायोधयमहं रिपुम् ॥ ६९ ॥ ततः संसर्ग-
 मालम्ब्य बलेनास्वबलेन च । ज्यहमुन्मत्तवद् युद्धं देवासुरमिवा-
 भवत् ॥७०॥ स मयास्त्रमतापेन निर्दग्धो रणमूर्धनि । पपाताभि-
 मुखः शूरस्त्यक्त्वा प्राणानरिन्दम ॥ ७१ ॥ एतस्मिन्नन्तरे तात
 काम्पिच्ये पृष्ठतोऽभ्यपात्वा हते नीपेश्वरे चैव हते चोग्रायुधे नृपे ७२

रान्त उन सब शास्त्रविशारद पुरुषोंने उस समय यह उत्तम काम
 आरम्भ कर दिया ॥ ६५ ॥ जब बुद्धिमान् साम दान आदि
 उपाय करके भी उस दुर्बुद्धिको नहीं समझा सके ६६ हे तान !
 उस समय उसका चलता हुआ चक्र दूसरेकी स्त्रीकी कामना
 करनेसे तत्क्षण ही रुक गया ॥६७॥ जब मैंने जाना कि-उसका
 चक्र निवृत्त होगया है अर्थात् अब उसकी आज्ञाको मनुष्य नहीं
 मानते हैं; तब मैंने उस सज्जनोंसे निन्दित पुरुषको उसके कर्मोंसे
 ही मरा हुआ जाना ॥६८॥ तब मैं आशौचसे निवृत्त हो स्वस्ति-
 वाचन करा कर धनुर्बाणको ले रथमें बैठ कर नगरमेंसे निकल
 कर शत्रुसे युद्ध करने लगा ॥ ६९ ॥ तब, भेंडा होने पर अस्त्र
 बल और शारीरिक बलसे मेरा और उसका युद्ध देवासुर संग्राम
 की-समान तीनदिन तक, होता रहा ॥ ७० ॥ हे अरिदमन !
 तब वह मेरे अस्त्रके प्रतापसे रणके मुहाने परभस्म होकर अपने
 प्राणोंको त्याग कर दह पड़ा ॥७१॥ हे राजन् ! नीपेश्वर राजा
 उग्रायुर्को मारे जाने पर पृष्ठत काम्पिच्यमें अ.या ७२ हे राजन् !

आहिच्छत्रं स्वक राज्यं पित्र्यं प्राप महाश्रुतिः । ७३ ॥ द्रुपदस्य पिता राजन् ममवानुमते तदा ॥ ७३ ॥ ततोऽर्जुनेन तरसा निर्जित्य द्रुपदं रणे । आहिच्छत्रं सकाम्पित्यं द्रोणायाथापवर्जितम् ॥ ७४ ॥ प्रतिगृह्य ततो द्रोणः उभयं जपतां वरः । काम्पित्यं द्रुपदायैव प्रापच्छ्रद्धितं तव ॥ ७५ ॥ एष ते द्रुपदस्यादौ ब्रह्मदत्तस्य चैव ह । वशः कात्स्येन त्री प्रोक्तो नीपस्योग्रायुधस्य च ॥ ७६ ॥ युधिष्ठिर, उवाच । किमर्थं ब्रह्मदत्तस्य पूजनीया शकुन्तिका । अन्धं चभार गांगेय ज्येष्ठ पुत्रं पुरा विभो ॥ ७७ ॥ चिरोपिता गृहे चापि किमर्थं चैव तस्य सा।चकार त्रिभियमिदन्तस्य राज्ञो महात्मनः ॥ ७८ ॥ पूजनीया चकारासां किं सख्यं तेन चैव ह । एतन्मे संशयं द्धिन्धि सर्वमुक्त्वा यथातथम् ॥ ७९ ॥ भीष्म उवाच । शृणु सर्वं महाराज यथावृत्तमभूत् पुरा । ब्रह्मदत्तस्य भवने तन्नि-

तव महाश्रुति द्रुपदके ॥ पिताने मेरी, सम्पति लेकर अपने पैतृक राज्य पर अधिकार कर लिया ॥ ७३ ॥ इसके उपरान्त अर्जुनने रणमें द्रुपदको बलात्कारसे जीत कर काम्पित्य और आहिच्छत्र द्रोणके अरण्य कर दिया था ॥ ७४ ॥ तब जीतनेवालोंमें श्रेष्ठ द्रोणने दोनों देशोंको पाकर काम्पित्य द्रुपदको ही लौटा दिया था, यह आपको विदित ही है ७५ यह मैंने तुझसे आदिसे अब तकका द्रुपदका ब्रह्मदत्तका और नीप उग्रायुधका सारा वंश कह दिया ७६ युधिष्ठिरने कहा, कि-हे विभो भीष्म ! पहिले पूजनी नाम वाली चिडियाने ब्रह्मदत्तके ज्येष्ठपुत्रको अन्धा क्यों कर दिया था ॥ ७७ ॥ वह तो उस राजाके घरमें चिरकालसे रहती थी तब भी उसने उस महात्मा राजाका अमिथ काम क्यों किया था ॥ ७८ ॥ आर उस पूजनीने उसके साथ किस बातकी मित्रताकी थी आप इस सबको यथार्थरीतिसे कह कर मेरे सारे सन्देहोंको दूर करदीजिये ७९ भीष्मजीनेने कहा, कि-हे युधि-

नीडाचामाकृष्य तदा पूजनीया कृत्वात्ततः । क्रीडता राजपुत्रेण
 कदाचिच्चटकः स तु ॥ ६७ ॥ निगृहीतः कन्धरागां शिशुना
 दृष्ट्वाष्टिना । दुर्भङ्गुष्टिना राजन्नमून् सद्यस्त्वजीजहत् ॥ ६८ ॥
 तं तु पञ्चत्वमापन्नं व्याचक्षास्यं बालत्रातिनम् । कथंचिन्मोचितं
 दृष्ट्वा नृपतिर्दुःखितोऽभवत् ॥ ६९ ॥ धार्त्री तस्य जगर्हे तां तदाश्रु-
 परमो नृपः । तस्थौ शोकान्वितो राजञ्च्योचस्तं चटकं तदा १००
 पूजनीयापि तत्काले गृहीत्वा तु फलद्वयम् । ब्रह्मदत्तस्य भवनमा-
 जगाम वनेचरी ॥ १०१ ॥ अथापर्यन्तमागम्य गृहे तस्मिन्नरा-
 धिप । पञ्चभूतपरित्यक्तं शावन्तं स्वतनूद्भवम् ॥ २ ॥ मुमोह दृष्ट्वा
 तं पुत्रं पुनः संज्ञामधालभत् । लब्धसंज्ञा च सा राजन् विललाप
 तपस्विनी ॥ ३ ॥ पूजनीयोवाच । न तु त्वमागतां पुत्र वाशंती

थी । ६५ । ६६ । एक समय उस राजपुत्रने खेलते २ पूजनीके
 वनाये हुए त्रोंसलेमेंसे, उस चिड़ियाके बच्चेको खेच लिया ६७ फिर
 उस कठिनतासे खुलने वाली मुट्ठी, बाले दृष्ट्वाष्टि राजकुमारने
 उसको, मुट्ठीमें दबाकर अपने गलेसे लगा लिया, तब देवाव
 के कारण उसने तत्काल ही अपने प्राणोंको त्याग दिया ६८
 राजा ब्रह्मदत्तने उसको किसी प्रकार उससे छुड़ाया, परन्तु उसको
 मरा हुआ, और मुख फैलाकर पड़ा हुआ और अपने पुत्रके
 द्वारा मारा हुआ देख कर, वह दुःखी हुआ ॥ ६९ ॥ तब
 उसने नेत्रोंमें आँसू भर कर उस भाईकी निन्दाकी, और हे राजन् !
 वह राजा उस चिड़ियाके बच्चेका खड़ा शोक करने लगा १००
 उसी समय पूजनी, भी दो फलोंको लेकर वनमें उड़ती-२ ब्रह्म-
 के भवनमें आपहुँची १०१ उसने तहाँ आकर अपने शरीरसे
 उत्पन्न हुए बच्चेको, पञ्चभूतोंसे त्यागा हुआ शवरूप देखा १०२
 उस पुत्रको देख कर वह मूर्च्छित होगई, कुछ समय पीछेवह, होशमें
 होगई, तब भान होने पर वह तपस्विनी विलाप करने लगी १०३

परिमर्षसि । कुर्वथात्सद्व्राणि अयत्ककलया गिरा ॥ ४ ॥
 व्यादितास्यः क्षुभात्तेश्च पीनेनास्येन पुत्रक । शोणेन तालुना पुत्र
 कथमद्य न सर्षसि ॥५॥ पन्नाभ्यां त्वां परिष्वज्य ननु वाशामि
 चाप्यहम् । चीचीति कूचीति वाशन्तं त्वामद्य न शृणोम्यहम् ।
 मनोरथो यस्तु मम पश्येत् पुत्रकं कदा । व्यात्तास्यं वारि याचन्तं
 स्फुरत्पन्नं ममाग्रतः ॥ ७ ॥ स मे मनोरथो भग्नस्त्वयि पञ्चत्व-
 मागते । विलप्यैवं बहुविधं राजानमथ साऽब्रवीत् ॥ ८ ॥ ननु
 मूर्धाभिषिक्तस्त्वं धर्मं वेत्सि सनातनम् । अथ कस्मान्मम सुतं
 प्राच्या यातितवानसि ॥ ९ ॥ तत्र पुत्रेण चाकुष्य क्षत्रियाधम-
 शंस मे । न च नूनं श्रुता तेऽभूदिगमाङ्गिरसी श्रुतिः ११० शरणा-
 पूजिनीने कहा, कि हे पुत्र! मैं आकर कूँ कूँ शब्द कर रही हूँ
 तब भी आफुट (तोनली) होनेसे मनोहर लगने वाली बाणीसे
 बातें करना हुआ तू मेरे सामने क्यों नहीं आता है ॥ १०४ ॥
 हे पुत्र ! भूँवसे पीड़ा पाकर अपने लाल तालु वाले पीले
 मुखको खोलता हुआ आज मेरे पास क्यों नहीं आता है १०५
 मैं तुझे पगोंसे लपेट कर रो रही हूँ तब भी मैं तुझे ची ची
 कू ची शब्द करता हुआ नहीं सुनती हूँ ॥ १०६ ॥ मेरे मनमें
 यह बात थी कि-मैं अपने सामने अपने पुत्रको मुख फैला कर
 जल पाँगता हुआ और पसोंको फटफटाता हुआ कब देखूँगी? ७
 तेरे मरनेसे मेरा वह मनोरथ मनमें ही रह गया इस प्रकार वह
 बहुतसा विलाप करके राजासे कहने लगी ॥१०८॥ हे राजन् !
 तू तो मूर्धाभिषिक्त (समाट) राजा है और सनातनधर्मको
 जानने वाला है, तब भी तूने मेरे पुत्रको धाईसे और अपने पुत्र
 से खिचता कर क्यों मरवा डाला इस बातका तू उत्तर दे ? क्या
 तूने यह आंगिरसी श्रुति नहीं सुनी है ॥ १०६-११० ॥ कि
 "शरणमें आये हुएकी, भूँवसे विलविलाते हुएकी और जिसके

गतः क्षुधार्तश्च शत्रुभिश्चाप्युपद्रुतः । चिरोपितरश्च स्वगृहे पातव्यः
 सर्वदा भवेत् ॥ ११ ॥ अपालयन्नरो याति कुम्भीपाक्यसंश-
 यम् । कथमस्य हविर्देवा गृह्णन्ति पितरः स्वधाम् ॥ १२ ॥ एव-
 मुत्तमा महाराज दश धर्मगता सती शोकार्ता तस्य बालस्य चक्षुषी
 निर्विभेद सा ॥ १३ ॥ कराभ्यां राजपुत्रस्य ततस्तच्चक्षुरस्फुटत् ।
 कृत्वा चान्धं नृपसुतमुत्पपात ततोऽन्वगम् ॥ १४ ॥ अथ राजा
 सुतं दृष्ट्वा पूजनीयामुवाच ह । विशोका भव कल्याणि कृतं ते
 भीरु शोभनम् ॥ १५ ॥ गतशोका निवर्तस्व अजर्यं सरुग्यमस्तु ते ।
 पुरेव वस भद्रन्ने निवर्त्तन्व रमस्य च ॥ १६ ॥ पुत्रपीडोद्भवश्चापि
 न कोपः परमस्त्वयि ममास्ति सखि मद्रन्ते कर्तव्यं च कृतं त्वया
 पीड्ये शत्रु लग रहे हों उसकी और जो अपने घरमें चिरकालसे
 रह रहा हो, उसकी रक्षा सदा करनी चाहिये ॥ ११ ॥ यदि
 मनुष्य इनका पालन नहीं करता है, तो वह अचर्य ही कुम्भी-
 पाक नरकमें पड़ता है, ऐसे पुरुषकी हविको देवता और स्वधाको
 पितर कैसे ग्रहण कर सकते हैं ? ॥ १२ ॥ हे महाराज ! इस
 प्रकार कह कर जोरसे कातर होनेके कारण दश धर्मोंको प्राप्त
 हुई उस त्रिडियाने अपने दोनों करोंसे उस बालक राजपुत्रके
 दोनों नेत्रोंको फोड़ डाला, तब उसने नेत्र फूट गए, इस प्रकार
 उस राजपुत्रको, अन्धा बनाकर वह आकाशपको उड़गई १३-१४
 तब राजाने पुत्रको देव कर पुत्रनीसे कहा कि-हे कल्याणि !
 अब तू शोकरहित होजा ! हे भीरु ! तूने अच्छा किया ॥ १५ ॥
 अब तूरा शोक दूर हागया होगा, अब तेरी और मेरी अविनाशी
 मित्रता हो, हे भद्रे ! अब तू मेरे पुरमें पहिलेकी समान ही
 निवास कर और रमण कर ॥ १६ ॥ हे सखि ! पुत्रको पीड़ा
 देनेसे भी मैं तेरे ऊपर कुछ कुपित नहीं हुआ हूँ, (क्योंकि-तू
 मेरी सखी है) और तूने भी अपने कर्तव्यका ही पालन किया

पूजनी गेवाच । आत्मोपम्येन जानामि पुत्रस्नेहं तथाप्यहम् ।
 न चाहं वस्तुभिञ्जामि तत्र पुत्रवचनुपम् । कृत्वा वै राजशार्दूल
 त्वद्गृहे कृतकृत्विषया ॥ १८ ॥ गाथाभाष्युशनोगीता इमाः
 शृणु मयेरिताः । कुमित्रं च कुदेशं च कुराजानं कुसौहृदम् ।
 कुपुत्रं च कुभार्यं च दूरतः परिकर्जयेत् ॥ १९ ॥ कुमित्रे सौहृदं
 नास्ति कुभार्यायां कृतो रतिः । कृतः पिण्डः कुपुत्रे च नास्ति
 सत्यं कुराजनि ॥ २० ॥ कुसौहृदे क्व विश्वासः कुदेशे न तु
 जीव्यते । कुराजनि भयं नित्यं कुपुत्रे सर्वतोऽसुखम् ॥ २१ ॥
 अपकारिणि विस्रम्भे यः करोति नराधिपः । अनाथो दुर्वलो
 यद्गन् चिरं स तु जीवति ॥ २२ ॥ न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते

है ॥ १७ ॥ पूजनीने कहा, कि-मैं अपनी ओर देखकर समझती
 है कि-तुम्हें भी ऐसा ही अपने पुत्रके ऊपर स्नेह होगा हे राज-
 शार्दूल । मैंने तेरे पुत्रको नेत्ररहित कर दिया है अत एव इस
 अपराधको करने पर मैं तेरे धरमें रहना नहीं चाहती ॥ १८ ॥
 तू मुझसे शुकाचार्यकी गई हुई इन गाथाओं सुन कि-“खोटे
 मित्र खोटे देश खोटे राजा खोटे सुहृत् खोटे पुत्र तथा खोटी
 भार्याको दूरसे ही त्याग देय ॥ १९ ॥ कुमित्र-खोटे पुरुष-में
 सुहृदपना नहीं निभ सकता, कुभार्यासे रतिसुख नहीं मिल सकता
 कुपुत्रसे पिण्ड मिलना कठिन है और कुराजासे सत्य (न्याय)
 की क्या आशा ? ॥ २० ॥ कुसौहृदमें विश्वास कहाँसे आया
 और कुदेशमें आजीविका चलना कठिन है; खोटे राजासे सर्वदा
 भय बना रहता है और कुपुत्रसे सदा दुःख ही मिलता है २१
 जो पुरुष जिसका अपराध किया हो यदि उस पुरुष पर विश्वास
 रखता है, वह अधम पुरुष अनाथ और दुर्बल मनुष्यकी समान
 चिरकाल तक जीवित नहीं रह सका ॥ २२ ॥ अविश्वस्त
 पुरुष पर विश्वास न करे और विश्वासी पुरुष पर भी अधिक

नाति विश्वेसत् । विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति २३
 राजसेविषु विश्वासं गर्भसंकरितेषु च । यः करोति नरो मूढो न
 चिरं स तु जीवति ॥ २४ ॥ अप्यु-नतिं प्राप्य नरः प्राचारः क्रीटको
 यथा । स हि नश्यत्यसन्देहमार्हवमुशना नृप ॥ २५ ॥ अपि मादेव-
 भावेन गात्रं सलीय बुद्धिमान् । हरिं नाशयते नित्यं यथा वल्ली
 महाद्रुमम् ॥ २६ ॥ मृदुराद्रोः कृशो भू वा शनैः संलीयते रिपुः ।
 वल्मीक इव वृक्षस्य पश्चान्मूलानि कृन्तति २७ अद्रोहसमयं कृत्वा
 मुनीनामग्रतो हरिः । जत्रान नमुचि परचादर्पा फेनेन पार्थिव २८
 सुप्त मत्तं प्रमत्तं वा घातयन्ति रिपुं नराः । विषेण वन्दिना वापि
 शस्त्रेणाप्यथ मायया ॥ २९ ॥ न च शेषं प्रकुर्वन्ति पुनर्वैरभया-

विश्वास न करे क्यों कि-विश्वास करने पर जो भय उत्पन्न
 होता है वह जड़को भी काट डालता है ॥ २३ ॥ जो पुरुष राज-
 सेवकों और सकर जातियों पर विश्वास करता है, वह मूढ़
 पुरुष चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता ॥ २४ ॥ हे राजन् !
 (ऐसे पुरुषों पर विश्वास रखने वाला पुरुष) जैसे चीटी पर
 निरले पर उड़नेके बाद जब नीचेको गिरती है तब जैसे उसको
 पत्ती खाजाते हैं, तैसे ही निःसन्देह मारा जाता है यह वान
 शुक्राचार्यजीने रही है ॥ २५ ॥ बुद्धिमान् पुरुष क्रोमलतासे अपने
 शरीरको बचाये रख कर महावृक्षका नाश करने वाली वल्ली
 (लता) की समान शत्रुओंका नाश कर डाले ॥ २६ ॥ जैसे
 वल्मीक शनैः २ चिकना गीला और कृश होकर वृक्षमें लगकर
 उसकी जड़को काट डालता है, इसी प्रकार शत्रु शत्रुके शरीरमें
 घुस जाय ॥ २७ ॥ हे राजन् ! इन्द्रने मुणियोंके सामने द्रोह न
 करनेकी प्रतिज्ञा करके भी जलके फेनोंसे नमुचिको मार डाला
 था ॥ २८ ॥ मनुष्य सोते हुए मत्त अथवा प्रमत्त शत्रुको विष
 देकर जलाकर अथवा शस्त्रसे या माया करके भीमार डालते हैं २९

न्नराः । घातयन्ति समूलं हि शत्रुनेमासुपमां नृप ॥ १३० ॥ शत्रु-
शोपमृणाच्छेषं शोपमग्नेश्च भूमिष । पुनर्वर्धेत संभूय तस्माच्छेषं
न शोपयत् ॥ ३१ ॥ हसते जल्पते वैरी एकपात्रे भुनक्ति च । एका-
सनं चारोहति स्मरते तच्च किञ्चिपम् ॥ ३२ ॥ कृत्वा सम्बन्धकं
चापि विश्वसेच्छत्रुणा न हि । पुलोमानं जघानाजौ जामाता
सञ्छतक्रतुः ॥ ३३ ॥ निधाय मनसा वैरं प्रियं वक्तीह यो नरः ॥
उपसर्पेन्न तं माङ्गः कुरंग इव लुब्धकम् ॥ ३४ ॥ न चासन्ने निव-
स्तव्यं संवरे वर्धिते रिपौ । पातयेत्त समूलं हि नदीरव इव
द्रुमम् ॥ ३५ ॥ अमित्रादुन्नतिं प्राप्य नोन्नतोऽस्मीति विश्व-
सेत् । तस्मात् प्राप्योन्नतिं नश्येत् प्रावार इव कीटकः ॥ ३६ ॥

मनुष्य फिर वैर होनेके भयसे शत्रुको वाकी नहीं रखते है,
हे नृप ! वह तो इस उपमाको सुन कर शत्रुको जड़से ही नष्ट कर
डालते है ॥ १३० ॥ यदि शत्रुको शत्रुको अथवा अग्निको
(थोड़ा) सा भी वाकी रहने दिया जाय तो वह फिर इफट्टा
होकर बढ़ने लगता है, अत एव इनको वाकी न रखते ॥ १३१ ॥
शत्रु हँसने पर बोलने पर और एकपात्रमें खानेपर तथा एकसे
आसन पर बैठने पर भी वैरका स्मरण करता ही रहता है १३२
शत्रुसे सम्बन्ध करके भी शत्रुके ऊपर विश्वास न करे, क्योंकि-
इन्द्रने जामाता बनने पर भी पुलोमाको मार डाला था ॥ १३३ ॥
जो पुरुष मनमें वैर रखता हुआ भी प्रिय बातें करता है, बुद्धि-
मान् पुरुष उसपर विश्वास न करे, क्योंकि-वह तो कुरंगके पास
आने वाले बहेलियेकी समान है ॥ १३४ ॥ यदि वैर रखने
वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास न बसे, क्योंकि-जैसे नदी
का वेग वृत्तको गिरा देता है, तैसे ही वह उसको जड़से उखाड़
डालता है ॥ १३५ ॥ शत्रुके साथ उन्नति पाने पर मैं उन्नत
होगया हूँ, ऐसा विश्वास न करे उससे उन्नति पाने पर मनुष्य

इत्येता ह्युशनोगीता गाथा धार्या विपश्चिता । कुर्वता चात्मरक्षां वै
 नरेण पृथिवीपते ॥ ३७ ॥ मया सकल्लिख्यं तुभ्यं प्रयुक्तमति-
 दारुणम् । पुत्रमन्त्रं प्रकुर्वन्त्या तस्मान्नो विश्वसे त्वयि ॥ ३८ ॥
 एवमुक्त्वा प्रदुद्राव तदाऽऽकाशे पतंगिनी । इत्येतत्ते मयाख्यातं
 पुरा भूतगिदं नृप ॥ ३९ ॥ ब्रह्मदत्तस्य राजेन्द्र यद्दृष्टं पूजनी-
 यया । श्राद्धं च पृच्छसे यन्मां युधिष्ठिर महामते ॥ ४० ॥ अतस्ते
 वर्तयिष्येहमितिहासं पुरातनम् । गीतं सनत्कुपारेण मार्कण्डेयाय
 पृच्छते ॥ ४१ ॥ श्राद्धस्य फलमुद्दिश्य नियतं सुकृतस्य च । तन्नि-
 चोय महागज सप्तजातिषु भारतः ४२ स गालवस्य चरितं कण्ड-
 रीकस्य चैव द्विव्रह्मदत्ततृतीयानां योगिनां ब्रह्मचारिणाम् ॥ ४३ ॥

इति श्रीमहाभाग्ने खिलेषु त्रिंशो हरिवंशपर्वणि चटका-
 ख्यानं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

मानार कीट (परदारचींटी) की समान नष्ट होजाता है ॥ ३६ ॥
 हे पृथिवीपते ! विद्वान् मनुष्य आत्मरक्षा करता हुआ शुक्राचार्य
 की गई हुई इन गाथाओंका स्मरण रखो ॥ ३६ ॥ मैंने तेरे
 पुत्रको अन्धा बना कर तेरा अतिदारुण अपराध किया है, अतः
 एव मैं तेरा विश्वास नहीं करूँगी ॥ ३८ ॥ इस प्रकार कहकर
 वह पक्षिणी आकाशमेंको उड़ गई, हे राजेन्द्र ! ब्रह्मदत्तका
 पूजनीके साथ जो सम्वाद हुआ था, वह मैंने तुमसे कह दिया
 और अब हे महामते युधिष्ठिर ! तुम मुझसे जिस श्राद्ध विषय
 को पूछते हो ॥ ३९-४० ॥ अतः मार्कण्डेयजीके ब्रह्मने पर
 श्राद्धके फलको और सातों जातियोंमें पुण्यके निधत फलको
 गालव और कण्डरीकके चरित्रको और ब्रह्मदत्त आदि तीसरे
 ब्रह्मचारी योगियोंके चरित्रको लक्षमें रख कर सनत्कुमारजीने
 जो इतिहास कहा था उस इतिहासको मैं तुमसे कहता हूँ ४१-४२
 बीसवा अध्याय समाप्त ॥ २० ॥

मार्कण्डेय उवाच। श्राद्धे प्रतिष्ठितो लोकोः श्राद्धे योगः प्रवर्तते ।
 हन्त ते वतसिष्यामि श्राद्धस्य फलमुत्तमम् ॥ १ ॥ ब्रह्मदत्तेन
 यस्मात्सं सप्तज्ञातिषु भारत । तत एव हि धर्मस्य बुद्धिर्निर्वर्तते
 शनैः ॥ २ ॥ पीडयाप्यथ धर्मस्य कृते श्राद्धे पुराऽन्य । यस्मात्सं
 ब्राह्मणैः पूर्वं तन्निबोध महामते ॥ ३ ॥ ततो इतानधर्मिष्ठान्
 कुरुक्षेत्रे पितृव्रतम् । सनत्कुमारनिर्दिष्टानपश्यं सप्त वै द्विजान् ४
 दिव्येन चक्षुषा तेन यानुवाच पुरा विशुः । वाग्दुष्टः क्रोधनो
 हिंस्रः पिशुनः कविरेव च । खलुमःपितृवर्तो च नामभिः कर्म-
 भिस्तथा ॥ ५ ॥ कौशिकस्य सुतास्तात शिष्या मार्ग्यस्य भारत ।
 पितर्युपरते सर्व व्रतवन्तस्तदाऽभवन् ॥ ६ ॥ विनियोगद् गुरोस्तस्य

मार्कण्डेयजीने कहा, कि-श्राद्धमें योग समाया हुआ है, और
 श्राद्धमें लोक प्रतिष्ठित रहता है, मैं तुझसे श्राद्धके उत्तम फलको
 कहता हूँ ॥ १ ॥ हे भारत ! ब्रह्मदत्तेन (भरद्वाज कौशिक व्याध
 मृग चक्रवाक हंस और श्रोत्रिय इन, सातके यहाँ उत्पन्न होकर
 (श्राद्धका) जो फल पाया था, उसको सुनकर ज्ञान मिलता
 है ॥ २ ॥ हे महामते ! धर्मको पीड़ित करके भी ब्राह्मणोंने
 श्राद्धके प्रतापसे जो फल पाया था उसको तुम सुनो ॥ ३ ॥ इसके
 उपरान्त मैंने अधर्मका वर्ताव करने वाले अत एव मारे हुएसे
 और कुरुक्षेत्रमें पितृव्रतवा पालन करने वाले सनत्कुमारजीके
 वताये हुए द्विजोंको मैंने देखा ॥ ४ ॥ विशु सनत्कुमारने पहिले
 जिनका बर्णन किया था उनको मैंने दिव्य नेत्रसे देखा, इनके
 नाम और कर्म एरुसे थे (वे नाम इस प्रकार हैं) वाग्दुष्ट क्रोधन
 हिंस्र पिशुन कवि खलुम और पितृवर्तो ॥ ५ ॥ हे भारत ! कौशिक
 (विश्वामित्र) के ये पुत्र थे और गालवके शिष्य थे, पिताके उपा-
 रत होने पर अर्थात् शाप देकर उदासीन होजाने पर उन्होंने
 ब्रह्मचर्य धारण किया था । ६ । एक समय वे सब गुरुके आइए ।

गां दोग्ध्रीं समकालयन् । समानवत्सां कपिलां सर्वे न्यायागतां
 तदा ॥ ७ ॥ तेषां पथि क्षुधानां बाल्यान्मोहाच्च भारत । क्रूर
 बुद्धिः समभवत्तां गां च द्विसितुं तदा ॥ ८ ॥ तान् कविः
 खसृमश्चैव याचेते नेति च तदा । न चाशक्यं तं ताभ्यां तदा
 वारयितुं द्विजाः ॥ ९ ॥ पितृवर्ती तु यस्तेषां नित्यं श्राद्धान्दिको
 द्विजः । स सर्वानब्रवीद्भातन् कोपाद्धर्मे समाहितः ॥ १० ॥ यद्य-
 वश्यं प्रहन्तव्या पितृनुद्दिश्य साध्विमाम् । प्रकुर्वीमहि गां सम्यक्
 सर्व एव समाहिताः ॥ ११ ॥ एवमेवापि गार्धर्मं प्राप्स्यते नात्र
 संशयः । पितृभ्यर्च्य धर्मेण नाधर्मोऽस्मान् भविष्यति ॥ १२ ॥
 तथेत्युक्त्वा च ते सर्वे प्रोक्षयित्वा च गां ततः । पितृभ्यः कल्प-
 यित्वेनामुपायुञ्जन्त भारत ॥ १३ ॥ उपयुज्य च गां सर्वे गुरो-
 स्तस्य न्यवेदयन् । शार्दूलेन हता धेनुर्वत्सोऽयं गृह्यतामिति १४

देने पर (चोरोंसे छीनी हुए अतएव) न्यायसे प्राप्त हुई सबत्सा
 दुधेर कपिला गौको लारहे थे ॥ ७ ॥ हे भारत ! उन्हें मार्गमें
 क्षुधा लगी तब मोहमें पड़ जानेके कारण उनको गौको मार
 डालनेकी क्रूर बुद्धि उत्पन्न हुई ॥ ८ ॥ तब कवि और खसृमने
 ऐसा न करनेकी उनसे प्रार्थना की, परन्तु वे उन द्विजोंको न गोक
 सके ९ उनमें प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला पितृवर्ती नामक द्विज धर्म
 में स्थिर हो कोपमें भर कर उनसे कहने लगा, कि- ॥ १० ॥
 यदि इसको मारना आवश्यक ही हो तो हम सबोंको चित्तको
 सावधान कर इसको पितृगोंके निमित्त मारडालना चाहिये ११
 ऐसा करनेसे इस गौको भी अवश्य ही धर्म होगा और पितरोंका
 पूजन करनेके अनन्तर हमको भी अधर्म नहीं होगा ॥ १२ ॥
 हे भारत ! तब उन सबोंने तथास्तु कह कर गौका प्रोक्षण
 किया और उसको पितरोंके निमित्त कल्पना करके खागए १३
 उन सबोंने गौका भक्षण करनेके बाद गुरुसे निवेदन किया, कि-

आर्जवात् स तु तं वत्सं प्रतिजग्राह वै द्विजः । मिथ्योपचर्यते तं
 तु गुरुमन्यायतो द्विजाः । कालेन समयुज्यन्त सर्व एवायुषः क्षये १५
 ते वै क्रूरतया हिंसा अनार्यत्वाद्गुरो तथा । उग्रा हिंसाविहाराश्च
 सप्ताजायन्त सोदराः ॥ १६ ॥ लुब्धकस्यात्मजास्तात वल्वन्तो
 मनस्विनः । पितृनभ्यर्च्य धर्मेण प्रोक्षयित्वा च गां तदा ॥ १७ ॥
 स्मृतिः प्रत्यवमर्शरश्च तेषां जात्यन्तरेऽभवत् । जाता व्याधा दशा-
 र्णेषु सप्तधर्मविलक्षणाः ॥ १८ ॥ स्वकर्मनिरताः सर्वे लोभानृत-
 विवर्जिताः । तावन्मात्रं प्रकुर्वन्ति यावता प्राणधारणम् ॥ १९ ॥
 शोषं ध्यानपराः कालमनुध्यायन्ति कर्म तत् । नामधेयानि चाप्येषा-
 मिमान्यासन्नराधिप ॥ २० ॥ निर्वैरो निर्वृतिः शान्तो निर्मन्युः

“गौको तो सिंहने मारडाला उसके बड़ड़ेको आप ग्रहण कर
 लीजिये ॥ १४ ॥ तब उन ब्राह्मणने कोमल स्वभाव होनेके कारण
 उस बड़ड़ेको ग्रहणकर लिया इसप्रकार उन विप्रोंने अन्याय कर
 अपने गुरुको ठगा था फिर आयु पूर्ण होने पर वे सब मर गए
 ॥ १५ ॥ वे हिंसक क्रूर होनेसे और गुरुसे अनार्यताका व्यव-
 हार करनेसे उग्र और हिंसाविहारी सात भाई बन कर उत्पन्न
 हुए ॥ १६ ॥ हे तात ! उस समय वह वल्वान् मनस्वी बड़े-
 लियेके पुत्र बन कर उत्पन्न हुए थे, उन्होंने धर्मतः पितरोंका
 पूजन कर गौका प्रोक्षण किया था ॥ १७ ॥ इससे दूसरे जन्म
 में भी उनको अपने पूर्वजन्म और पूर्वजन्मके किये हुए कर्मका
 स्मरण बना रहा वे दशार्ण देशमें व्याध बनकर उत्पन्नहुए और
 सातों ही धर्ममें चतुर हुए १८वे सब अपने कर्ममें तत्पर रहतेथे और
 सब लोभ और असत्यसे दूर रहते थे और वे उतना ही भोजन
 करते थे, जितनेसे कि-माण टिके रहें ॥ १९ ॥ उनके पास जो
 समय बचता था, उसमें वह अपने (पूर्व जन्मके) कर्मका चिन्तन
 करते रहते थे, हे नराधिप ! उस जन्ममें इनके ये नाम थे ॥ २० ॥

कृतिरेव च । वैद्यसोमा नृवर्ती च व्याधाः परमधार्मिहाः ॥२१॥
 तैरेव युपितैस्तात हिंसाधर्मरतैः सदा । माता च पूजिता वृद्धा
 पिता च परितोपिनः ॥ २२ ॥ यदा माता पिता चैव संयुक्तौ
 कालधर्मणा । तदा तनूंपि ते त्यक्त्वा वने प्राणानवास्यन् २३
 शुभेन कर्मणा तेन जाता जातिस्मरा मृगाः । त्रासानुत्पाद्य
 संविग्ना रम्ये कालञ्जरे गिरौ ॥ २४ ॥ उन्मुखो नित्यवित्रस्तः
 स्तब्धकर्णो विलोचनः । पण्डितो घस्मरो नादी नामतस्तेऽभवन्
 निर्वैरं निर्वृति शान्तं निर्मन्यु कृति वैद्यसोमा नृवर्ती ये परम-
 धार्मिक व्याध ये ॥२१॥ वे यद्यपि चोर थे और सर्वदा हिंसा
 धर्मे ही परायण रहते थे तब भी वे अपनी वृद्धा माताका
 सत्कार करते थे और अपने पिताको सन्तुष्ट रखते थे ॥२२॥
 जब उनके माता और पिता मर गये तब उन्होंने अपने धनुषोंको
 त्याग कर वनमें (अनशन आदिके द्वारा) अपने प्राणोंको
 त्याग दिया ॥ २३ ॥ वे (माता पिताकी सेवारूप) शुभ कर्म
 के कारण जातिस्मर (पूर्वजन्मका स्मरण रखने वाले) मृग
 होकर उत्पन्न हुए (और हिंसाके द्वारा) त्रास देनेसे मनो-
 हर कालञ्जर गिरिमें सदा बसवाते रहते थे ॥ २४ ॥
 उन्मुख नित्यवित्रस्त स्तब्धकर्ण विलोचन पण्डित घस्मर और
 नादी नाम वाले मृग हुए (उनमें जो वाग्दुष्ट था वह सदा दूसरों
 की निन्दा करनेके लिये उन्मुख रहनेसे (ऊर्ध्वमुख) उन्मुख
 हुआ अर्थात् वह कठिनतासे आहार कर सकता था, और क्रोधन
 सर्वदा दूसरोंको उद्विग्न करता रहता था अन एव वह अपने
 आप भी सर्वदा संजस रहने वाला नित्यसंजस्त नामक हुआ,
 और पिशुन-स्तब्धकर्ण वहिरा हुआ, हिंस्र विलोचन अर्थात्
 अन्या हुआ, कवि पण्डित हुआ, और स्वसृप (आकाशचारी-
 परलोकविचारी) घसृप अर्थात् यथेष्ट आहार करने वाला

मृगाः ॥२५॥ तथैवार्थमनुयान्तो जातिस्मरणसम्भवम् । आसन्
 वनचराः ज्ञान्ता निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः ॥ २६ ॥ ते सर्वे शुभ-
 कर्माणाः सधर्माणो वनेचराः । योगधर्मपनुभाप्ता विहरन्ति स्म
 तत्र ह ॥२७॥ जहुः माणान् मरुं साय लघ्वाहारास्तपस्विनः ।
 तेषां मरुं मायतां पदस्थानानि भारत । तथैवाप्यापि दृश्यन्ते
 गिरौ कालञ्जरे नृप ॥ २८ ॥ कर्मणा तेन ते तात शुभेनाशुभ-
 वर्जिताः । शुभान्छुभतरां योनिं चक्रवाकत्वमागताः ॥ २९ ॥
 शुभे देशे शरद्वीपे सप्तैवासन् जलौकसः । त्यक्त्वा सहचरीधर्मं
 मुनयो ब्रह्मचारिणः ॥ ३० ॥ निःस्पृहो निर्ममः ज्ञान्तो निर्द्वन्द्वो
 हुआ और पितृवर्ती श्राद्धकर्ता होनेसे नादी अर्थात् नादमुखका
 भोक्ता हुआ, वह मर्गोका अति प्यारा था, यह उनकी नामा-
 नुसार संज्ञा कह दी) ॥ २५ ॥ (उस जन्ममें भी) वे उसही
 (योगभूटाचरण और गुरुको धोखा देनेके फल रूप) प्रयो-
 जनको विचारते रहते थे, क्योंकि-उनमें पूर्वजन्मकी जातिका
 स्मरण था, उस जन्ममें वे सुख दुःख शीत उष्ण आदि
 द्वन्द्वोंसे रहित और परिग्रहरहित होकर वनमें घूमते थे ॥२६॥
 वे सब अहिंसा आदि शुभ धर्मोंका एकसी रीतिसे पालन करते
 थे और योगधर्मका आश्रय कर वनमें इधर उधर घूमते फिरते
 थे ॥ २७ ॥ उन तपस्वियोंने लघु (हलका) भोजन करके मरु
 (निर्जल-जल न पीने) का साधन करके अपने प्राणोंको छोड़
 दिया, हे राजन् ! जल न पीनेकी साधना करनेके सपपके उनके
 पैरोंके चिन्ह कालञ्जर गिरिमें अब भी दिखाई देते ह ॥ २८ ॥
 हे तात ! इस शुभ कर्मके कारण वे अशुभसे छूट कर अतिशुभ
 चक्रवाककी योनिमें उत्पन्न हुए ॥ २९ ॥ वे सातों शुभ जल-
 चरपत्नी होकर उत्पन्न हुए थे और वे सहचरीधर्म अर्थात् मैथुन
 धर्मसे त्याग कर ब्रह्मचारी मुनि बन कर रहने लगे ॥ ३० ॥

निष्परिग्रहः । निर्वृतिर्निभृतश्चैव शकुना नामतः स्मृताः ॥३१॥
 ते तत्र पक्षिणः सर्वे शकुना धर्मचारिणः । निराहारा जहुः
 प्राणांस्तपोयुक्ताः सरित्तटे ॥ ३२ ॥ अथ ते सोदरा जाता हंसा
 मानसचारिणः । जातिस्मराः सुसंयुक्ताः सप्तैव ब्रह्मचारिणः ३३
 विमयोनौ यतो मोहान्मिथ्योपचरितो गुरुः । तिर्यग्योनौ ततो
 जाताः संसारे परिवभ्रमुः ॥ ३४ ॥ यतश्च पितृवाक्यार्थः
 कृतः स्वार्थे व्यवस्थितैः । ततो ज्ञानं च जातिं च ते हि
 प्रापुर्गुणोत्तराम् ॥ ३५ ॥ सुमनाः शुचिवाक् शुद्धः पञ्च-
 मरिद्धदर्शनः।सुनेत्रश्च स्वतन्त्रश्च शकुना नामतः स्मृताः ॥३६॥
 पंचमः पांचिकस्तत्र सप्तजातिष्वजायत । पष्ठस्तु कण्डरीकोऽभूद्
 ब्रह्मदत्तस्तु सप्तमः ॥ ३७ ॥ तेषां तु तपसा तेन सप्तजातिकृतेन

(उस जन्ममें) वे निस्पृह निर्मम ज्ञान्त निर्द्वन्द्व निष्परिग्रह
 निर्वृति और निभृत नामक पक्षी हुए ॥ ३१ ॥ उन सब पक्षियों
 ने धर्मात्मा रह कर नदीके किनारे निराहार रह तप करते २
 अपने प्राणोंको त्याग दिया ॥ ३२ ॥ इसके उपरान्त वह मान-
 सरोवर पर घूमने वाले हंस बन कर उत्पन्न हुए, उस जन्ममें
 भी उनके जातिका स्मरण रहता था (इस लिये) वह सातों
 ब्रह्मचारी रहते थे ॥ ३३ ॥ उन्होंने ब्राह्मणयोनिमें अपने गुरुसे
 मिथ्या भाषण किया था अत एव वे तिर्यग्योनिमें उत्पन्न होकर
 संसारमें चकराने लगे ॥३४॥ और उन्होंने स्वार्थमें तत्पर रहने
 पर भी पितरोंके निमित्त वास्य बोला था इसलिये उनके गुणो-
 त्तर ज्ञान और जन्म मिलता चला गया ॥ ३५ ॥ उस समय वे
 सुमना शुचिवाक् शुद्ध पञ्चम र्द्धदर्शन सुनेत्र और स्वतन्त्र नाम
 वाले पक्षी कहलाते थे ॥ ३६ ॥ इनमें (जो वाग्दुष्ट आदिमें)
 पाँचवा था वह सातों जन्मोंमें पाँचवाँ ही हुआ था और (सप्तम
 मनुष्य जन्ममें) पाञ्चिक (नामक राजमन्त्री) होगा कदा

वै । योगस्य चापि निर्वृत्त्या प्रतिभानाच्च शोभनात् ॥ ३८ ॥
 पूर्वजातिषु यद् ब्रह्म श्रुतं गुरुकुलेषु वै । तथैवावस्थिता बुद्धिः
 संसारेष्वपि वर्तताम् ॥ ३९ ॥ ते ब्रह्मचारिणः सर्वे विहंगा ब्रह्म-
 वादिनः । योगधर्ममनुश्यान्तो विहरन्ति स्म तत्र ह ॥४०॥ तेषां
 तत्र विहंगानां चरतां सद् चारिणाम् । नीपानामीश्वरो राजा
 विभ्राजः पौरवान्वयः ॥ ४१ ॥ विभ्राजमानो वपुषा प्रभावेन
 समन्वितः । श्रीमानन्तःपुरश्चो वनं तत्प्रविशेश ह ॥ ४२ ॥
 स्वतन्त्रथ विहंगोऽसौ स्पृहयामास तं वृषम् । दृष्ट्वा यान्तं श्रियो-
 पेतां भवेयमहमीदृशः ॥ ४३ ॥ यद्यस्ति सुकृत किञ्चित्तपो वा
 नियमोपि वा । खिन्नोस्मि ह्युपवासेन तपसा निष्फलेन च ॥४४॥

(खसृम) कण्डरीक होगा और सातवाँ (पितृवर्ती) ब्रह्मदत्त
 होगा ॥ ३७ ॥ उनके सातों जन्मोंमें किये हुए तपके
 कारण और योगके पूर्ण होनेके कारण और पूर्वजन्मके कर्मका
 स्मरण रहनेसे ॥ ३८ ॥ उन्होंने पूर्वजन्ममें गुरुओंके कुलोंमें
 निवास करके वेदका अध्ययन किया था अतएव संसारमें
 भ्रमण करने पर भी उनकी बुद्धि जैसी ही रही, बदली नहीं ३९
 वे सब पत्नी होने पर भी ब्रह्मचारी और ब्रह्मवादी और योगा-
 धर्मका पालन करने वाले बने रहे ॥ ४० ॥ जब वे सब पत्नी
 बनमें एक साथ विचरते थे उस समय जीर्णका स्वामी पौरव-
 वंशी विभ्राज अपने शरीरसे दमदमाता हुआ और अपना
 प्रभाव दिखाता हुआ अपने अन्तःपुरको लेकर उस वनमें आया
 तब स्वतन्त्र नाम वाले पत्नीने उस लक्ष्मीवान् राजाको देख कर
 उस राजाकी स्पृहाकी और विचारने लगा, कि-यदि मेरा
 कुछ तप वा नियम हो तो मैं इस राजाकी समान हो जाऊँ 'प्रब तो
 मैं उपवास और निष्फल तप करते २ खिन्न हो गया हूँ ॥४३॥४४॥
 इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त २ छ छ छ छ

मार्कण्डेय उवाच । ततस्तं चक्रवाकौ द्वावृचतुः सहचारिणौ ।
 आवां ते सचिवा स्यावस्तव प्रियदितैपिणौ ॥ १ ॥ तथेत्युक्त्वा
 च तस्यासीत्तदा योगात्मिका मतिः । एवं ते समयं चक्रः शुचि-
 वाक्तमुवाच ह २ यस्मात्कामध्यानस्त्वं योगधर्ममपास्य वै । एवं
 वरं प्रार्थयसे तस्माद्वाक्यं निबोध मे ॥ ३ ॥ राजा त्वं भविता
 तात कांपिल्ये नात्र संशयः । भविष्यतः सखायौ च द्वाविमौ
 सचिवा तव ॥ ४ ॥ शप्त्वा चाऽनभिभाष्यांस्तांश्चत्वारश्चक्रु-
 र्दजाः । तांस्त्रीनभीप्सतो राज्यं व्यभिचारमथर्पितान् ॥ ५ ॥
 शप्ताः खगास्त्रयस्ते तु योगभ्रष्टा विचेतमः । तानयाचन्त चतुर-
 स्त्रयस्ते सहचारिणः ॥ ६ ॥ तेषां प्रसादं ते चक्रुरथैतान् सुम-
 नाऽब्रवीत् । सर्वेषामेव वचनात् प्रसादानुगतं वचः ॥ ७ ॥ अन्त-
 चान् भविता शापो युष्माकं नात्र संशयः । इत्श्च्युताश्च मानुष्यं

मार्कण्डेयजीने कहा, कि-उस समय उसके सहचारी दो चक्र-
 वाकोंने उससे कहा, कि हम आपका प्रिय चाहने वाले आपके
 मन्त्री बनेंगे । १ । तब तथास्तु कहनेके अनन्तर उसकी योग-
 मय बुद्धि हो गई, इस प्रकार उन्होंने प्रतिज्ञाकी तब शुचिवाकने
 उससे कहा, कि-२। तू योगधर्मको दूर कर कामध्यान धर्मको
 पाना चाह कर ऐसा वर माँग रहा है अत एव तू मेरे वचनको
 सुन ३ तू निःसन्देह काम्पिल्यमें राजा होगा और ये तेरे दोनों
 मित्र तेरे मन्त्री होंगे ४-उन चार अण्डजोंने राज्यकी इच्छा करने
 वाले अत एव व्यभिचारी उन तीन पत्तियोंको शाप देकर उनसे
 बोलनः छोड़ दिया ५ जब तीन पत्ती शाप पा कर योगभ्रष्ट हो
 अचेतनसे हो गए तब उन्होंने अपने चार सहचारी हंसोंसे प्रार्थना
 की ॥ ६ ॥ तब उन्होंने उनके ऊपर कृपाकी और सुमनाने सब
 की सम्मतिसे प्रसाद भरा वचन कहा, कि-७। तुम्हारा शाप
 नाशवान् होगा, इसमें तुम कुछ सन्देह न रखो, तुम यहाँसे

प्राप्य योगमवाप्स्यथ ॥ ८ ॥ सर्वसत्त्ववृत्तज्ञश्च स्वतन्त्रोऽयं भवि-
ष्यति । पितृप्रसादो ह्यस्माभिरस्य प्राप्तः कृतेन वै ॥ ९ ॥ गां
प्रोक्षयित्वा धर्मेण पितृभ्य उपकल्पयताम् । अस्माकं ज्ञानसंयोगः
सर्वेषां योगसाधनः ॥ १० ॥ इमं च वाक्यसंदर्भं श्लोकमेक-
मुदाहृतम् । पुरुषांतरितं श्रुत्वा ततो योगमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

पितृवाक्ये द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

मार्कण्डेय उवाच । ते योगधर्मनिरताः सप्त मानसचारिणः ।
पद्मगर्भोऽरविदान्तः क्षीरगर्भः सुलोचनः ॥ १ ॥ उरुविन्दुः सुवि-
दुश्च हैमगर्भस्तु सप्तमः । वाय्वंबुभक्षाः सततं शरीराण्युपशोप-
यन् ॥ २ ॥ राजा विभ्राजमानस्तु वपुषा तद्दत्तं तदा । चचारांतः-

भ्रष्ट होकर मनुष्यजातिमें उत्पन्न होकर योगज्ञानकी प्राप्तिमें
और यह स्वतन्त्र सब प्राणियोंके स्वर्गको जानने वाला होगा,
क्योंकि-इसके उपदेशसे ही हमने पितरोंकी मसन्नता पाई है। (उस
(उस उपदेशका वर्णन करते हैं) कि-‘धर्मपूर्वक पितरोंके निमित्त
गौका प्रोक्षण करके पितरोंके अर्पण करदो’ (इसीसे हमारा)
ज्ञानसे संयोग होता चला आरहा है और वह सबके योगमें
सहायता देरहा है ॥ १० ॥ तुमको दूसरे मनुष्यसे इस (सप्त-
व्याधा दशार्णेषु आदि वक्ष्यमाण वाक्यमय) श्लोकको सुन
कर योग प्राप्त होजावेगा ॥ ११ ॥ वाईसवाँ अध्याय समाप्त २२

मार्कण्डेयजीने कहा, कि-उन योगधर्ममें निरत रहनेवाले मानस
सरोवर पर विचरण करने वाले पद्मगर्भ अरविदान्त क्षीरगर्भ
सुलोचन उरुविन्दु सुविदु और सातवें हैमगर्भ हंसने वायु और
जलका ही भक्षण करके अपने शरीरोंको सुखा डाला? उस
समय वह राजा अपने शरीरसे इन्द्रकी समान प्रकाश फैलाता
हुआ अपनी स्त्रियोंको साथमें ले उसवनमें नंदनव-इन्द्रकी समान

पुरवृत्तो नन्दनं मघवानिव ॥ ३ ॥ स तानपश्यत् खचरान् योग-
धर्मात्मकान् नृप । निर्जेदाच्च तमेवार्थमनुध्यायन् पुरं ययौ ॥४॥
अणुहो नाम तस्यासीत्पुत्रः परमधार्मिकः । अणु र्धर्मतिर्नित्यमणुं
सोऽध्यगमत् पदम् ॥५॥ प्रादात् कन्यां शुकस्तस्मै कृत्वीं पूजित-
लक्षणाम् । सत्त्वशीलगुणोपेतां योगधर्मरतां सदा ॥ ६ ॥ सा
दुहिष्ठा पुरा भीष्म पितृकन्या मनीषिणी । सनत्कुमाररेण तदा
सन्निर्धा मम शोभना ॥ ७ ॥ सत्यधर्मभृतां श्रेष्ठा दुर्विज्ञेया कृता-
त्मभिः । योगा च योगपत्नी च योगमाता तथैव च ॥८॥ यथा
ते कथितं पूर्वं पितृकल्पेषु वै मया । विभ्राजस्त्वणुहं राज्ये स्थाप-
फिरने लगा ॥३॥ हे नृप ! उस राजाने उन पत्नियोंको (एकाग्रता
आदि ब्राह्म लक्षणोंसे) योगधर्ममें परायण समझा तब वह (पत्नी
भी योग साधन करते हैं, हाय ! मैं मनुष्य होकर भी योगको न
साध सका) इसप्रकार खिन्न होकर इसी बातको सोचता हुआ
अपने नगरको चला गया ॥ ४ ॥ उसका अणुह नामक [मूढम
अर्थोंको पानेवाला] परम धार्मिक पुत्र हुआ, वह अणु [मूढम]
धर्मसे सर्वादा प्रेम करता था, उसने अणु [मूढम] पद पाया
था ॥ ५ ॥ उसको शुकने पूजनीय चिन्होंवाली सत्त्व
और शीलरूप गुणोंसे सम्पन्न और सदा योगधर्मका पालन
करनेवाली अपनी कन्या कृत्वी देदी ॥ ६ ॥ हे भीष्म ! पहिले
सनत्कुमारने मुझसे इसको शोभना मनीषिणी पितृकन्या [पीवरी]
बताया था ॥ ७ ॥ वह सत्यधर्मका पालन करने वालोंमें श्रेष्ठ थी
और अकृतात्मा पुरुष उसको कठिनतासे जान सकते थे, वह
स्वयं योगधर्मका पालन करती थी और योगीनी पत्नी और योगी
धी-माता भी थी यह बात मैंने पितृकल्पका वर्णन करते समय
भी कही थी [कुद्व समयके अनन्तर] नरेश्वर विभ्राज अणुह
को राज्य पर स्थापित करके नागरिकोंको बुलाकर और ब्राह्मणों

यित्वा नरेश्वरः ॥ ६ ॥ आमन्त्र्य पौरान् पीतात्मा ब्राह्मणान्
 स्वस्तिवाच्य च । प्रायात्सरस्तपश्चतुं यत्र ते सहचारिणः ॥१०॥
 स वै तत्र निराहारो वायुभक्तो महातपाः । तपक्त्वा कामास्तपस्तेपे
 सरसस्तस्य पार्श्वतः ॥ ११ ॥ तस्य सकल्प आसीच्च, तेषा-
 मेकतरस्य वै । पुत्रत्व प्राप्य योगेन युज्येयमिति भारत ॥१२॥
 कृत्वाऽभिसन्धिं तपसा गहता स सपन्वितः । महातपाः स
 विभ्राजो विरराजाशुमानिव ॥१३॥ ततो विभ्राजितं तेन वैभ्राज-
 नाम तद्वनम् । सरस्तच्च कुरुश्रेष्ठ वैभ्राजमिति संज्ञितम् ॥ १४ ॥
 यत्र ते शकुना राजंश्चत्वारो योगधर्मिणः । योगभ्र-स्त्रयश्चैव
 देहन्पासकृतोऽभवन् ॥ १५ ॥ कांपिष्ये नगरे ते तु ब्रह्मदत्तपुरो-
 गमाः । जाताः संप्त महात्मानः सर्वे विगतकल्मषाः ॥ १६ ॥

से स्वस्तिवाचन कराकर जहाँ वे सहचारी हंस रहते थे उस
 सरोवर पर तप करनेको चलागया ॥ ६ ॥ वह महातपस्वी उस
 सरोवरके तट पर पहुँच कर सब कामनाओंको त्यागकर निरा-
 हार रह वायुभक्षण कर तप करनेलगा ॥११॥ हे भारत ! उसने
 यह संकल्प किया, कि मैं इन (योगी हंसोंमेंसे) किसी एकका
 पुत्र बनकर उत्पन्न होऊँ, तो मैं भी योगधर्मका पालन कर सकूँगा
 अर्थात् योगीका पुत्र होने पर मैं भी योगी ही होजाऊँगा ॥१२॥
 इस प्रकार विचार करके वह महातपस्वी विभ्राज बड़ा, भारी तप
 करके सूर्यकी समान दिपने लगा ॥ १३ ॥ उसने (अपने तपसे)
 उस वनको विभ्राजित कर (दमका) दिया, इससे वह वन
 वैभ्राज नामसे प्रसिद्ध होगया और हे कुरुश्रेष्ठ ! वह सरोवर भी
 वैभ्राज नामसे प्रसिद्ध होगया ॥ १४ ॥ हे राजन् ! उस सरो-
 वर पर उन योगभ्रष्ट योगधर्मी तीन और चार पक्षियोंने अपने
 शरीरकेहत्याग दिया था ॥ १५ ॥ वे पापरहित सानों महात्मा
 कांपिष्यनगरमें ब्रह्मदत्त आदि (नामसे) उत्पन्न हुए ॥१६॥ ये

ज्ञानध्यानतपःपूजावेदवेदांगपारगाः । स्मृतिमन्तोत्र चत्वारस्त्रयस्तु
 परिमोहिताः ॥ १७ ॥ स्वतन्त्रस्त्वणुहाज्जज्ञे ब्रह्मदत्तो महायशाः ।
 यथा ह्यासीत् पत्तिभावे संकल्पः पूर्वचिन्तिनः ॥ १८ ॥ छिद्रदर्शी
 मुनेत्रश्च तथा वाभ्रव्यवत्सयोः । जातो श्रोत्रियदायादौ वेदवेदांग-
 पारगौ ॥ १९ ॥ सहायी ब्रह्मदत्तस्य पूर्वजातिसहोषितौ । पांचालः
 पांचिकश्चैव कण्डरीकस्तथापरः ॥ २० ॥ पांचालो वेद्वृचस्त्वा-
 सीदाचार्यत्वं चकार ह । द्विवेदः कण्डरीकस्तु द्वन्द्वो गोऽध्वयुरेव
 च ॥ २१ ॥ सर्वसत्त्वकृतज्ञस्तु राजाऽऽसीदणुहात्मजः । पांचाल-
 कण्डरीकाभ्यां तस्य सख्यमभूत्तदा ॥ २२ ॥ ते ग्राम्यधर्माभि-
 रताः कामस्य वशवर्तिनः । पूर्वजातिकृतेनासन् धर्मकामार्थको-
 ज्ञान ध्यान तप पूजामे परायण और वेद वेदांगके पारगामी थे
 इनमें चार स्मृतिमान् अर्थात् इनको अपने पूर्वजन्मका स्मरण था
 और तीन मोहित थे ॥ १७ ॥ स्वतन्त्रने अपने पत्तिशरीरमें
 जिस प्रकार विचार किया था, उसी प्रकार वह अणुइके महा-
 यशस्वी ब्रह्मदत्त नामक पुत्र बन कर उत्पन्न हुआ ॥ १८ ॥
 छिद्रदर्शन और मुनेत्र वाभ्रव्य और वत्स नामक राजाके श्रोत्रिय
 मंत्रियोंके कुलमें वेद वेदांगके पारगामी श्रोत्रिय पुत्र बन कर
 उत्पन्न हुए ॥ १९ ॥ वे पहिले जन्ममें एक साथ रहनेके कारण
 ब्रह्मदत्तके सहायक बन कर उत्पन्न हुए इनमें (भ्रव जन्मोंमें)
 पांचवाँ (कवि) पाञ्चाल नामसे और (छठा खसम)
 कण्डरीक नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ २० ॥ इनमें पाञ्चाल ऋग्वेदी
 हुआ और वह आचार्यपना (पुरोहिताई) करने लगा और
 कण्डरीक द्वन्द्वोको गानेवाला द्विवेद अध्वर्यु हुआ अर्थात् ऋग्वेद
 और यजुर्वेदको जानने वाला हुआ ॥ २१ ॥ और अणुइका
 पुत्र राजा (ब्रह्मदत्त) सब पाणियोंकी भाषाको जानता था
 उसकी पाञ्चाल और कण्डरीकसे मित्रता होगई ॥ २२ ॥ ये

निदाः ॥ २३ ॥ अणुइस्तु नृपश्रेष्ठो ब्रह्मदत्तमकल्पम् । राज्ये-
ऽभिषिच्य योगात्मा परां गतिमवाप्तवान् ॥ २४ ॥ ब्रह्मदत्तस्य
भार्या तु देवलस्यात्मजाऽभवत् । असितस्य हि दुर्धर्पा सन्नति-
नाम नामतः ॥ २५ ॥ तामेकभावसंपन्नां लेभे कन्यामनुत्तमाम् ।
सन्नतिं सन्नतिमतीं देवलायोगधर्मिणीम् ॥ २६ ॥ पञ्चमः पाँचि-
कस्वत्र सप्तजातिषु भारत । पष्ठस्तु कण्डरीकोऽभूद् ब्रह्मदत्तस्तु
सप्तमः ॥ २७ ॥ शेषा त्रिहंगमा ये नै कापिल्ये सहचारिणः । ते
जाताः श्रोत्रियकुले सुदरिद्रे सहोदराः ॥ २८ ॥ धृतिमान् शुभना
विद्वांस्तत्त्वदर्शी च नामतः । वेदाध्ययनसम्पन्नाश्चत्वारश्चिद्र-
दर्शिनः ॥ २९ ॥ तेषां संविद्यथोत्पन्ना पूर्वजातिकृता तदा । ते
(तीनों) ग्राम्यधर्ममें मग्न रहते थे और काम (इच्छा) के वशमें
चलते थे, परन्तु पूर्वजन्ममें किये हुए (श्राद्धरूप धर्मके फलसे)
वे धर्म अर्थ और काममें चतुर हुए ॥ २३ ॥ राजाओंमें श्रेष्ठ
योगात्मा अणुह निष्पाप ब्रह्मदत्तका राज्यमें अभिषेक कर परम
गतिको प्राप्त होगया ॥ २४ ॥ ब्रह्मदत्तकी स्त्री असित देवलकी
पुत्री थी वह सन्नति नामसे प्रसिद्ध थी ॥ २५ ॥ उस एकभाव
(ब्रह्मभाव) से सम्पन्न नक्षत्रामयी योगधर्मिणी सन्नति नामक
कन्याको ब्रह्मदत्तने देवल ऋषिसे पाया था ॥ २६ ॥ हे भारता
सब जातियोंमें पाँचवाँ उत्पन्न होने वाला उस जन्ममें पाँचिक
हुआ, छठा कण्डरीक हुआ और सातवाँ ब्रह्मदत्त हुआ २७
वाकी सहचारी पत्नी काम्पिल्य नगरमें दरिद्र श्रोत्रियके कुलमें
सगे भाई बन कर उत्पन्न हुए ॥ २८ ॥ वे चारों धृतिमान्
शुभना विद्वान् और तत्त्वदर्शी नामसे प्रसिद्ध थे और वेदका
अध्ययन करनेमें लगे रहते थे और चिद्रदर्शी थे अर्थात् महापथमें
जानेके लिये अवकाशको देखते रहते थे ॥ २९ ॥ उनको पूर्ण-
जन्मका ज्ञान इस जन्ममें भी हुआ, अत एव वे योगधर्ममें निरत

योगनिरताः सिद्धाः प्रस्थिताः सर्व एव हि ॥ ३० ॥ आमन्त्र्य
 पितरं तात पिता तानब्रवीच्चदा । अधर्म एष युष्माकं यन्मा
 त्यक्त्वा गमिष्यथ ॥ ३१ ॥ दारिद्र्यमनपाकृत्य पुत्रार्थाश्चैव
 पुष्कलान् । शुश्रूषामपयुज्यैव कथं चै गन्तुर्महथ ॥ ३२ ॥ ते तमू-
 च्छुद्विजाः सर्वे पितरं पुनरेव च । करिष्यामो विधानन्ते येन त्वं
 वर्तयिष्यसि ॥ ३२ ॥ इमं श्लोकं महार्थं त्वं राजानं सहमन्त्रि-
 णम् । श्रावयेथाः सपागम्य ब्रह्मदत्तमकल्मषम् ॥ ३४ ॥ प्रीतात्मा
 दास्यति स ते ग्रामान् भोगांश्च पुष्कलान् । यथेप्सितांश्च सर्वा-
 र्थान् गच्छ तात यथेप्सितम् ॥ ३५ ॥ एतावदुक्त्वा ते सर्वे पूज-
 यित्वा च तं गुरुम् । योगधर्ममनुप्राप्य परां निर्दृतिमाययुः ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

गहने वाले सब पुत्र पितासे कह कर प्रस्थान करने लगे, तब
 पिताने उमसे कहा कि-यह तुम्हाग अधर्म है, कि तुम हमने
 छोड़ कर भाग रहे हो ३०-३१ तुमको अभी हमारे दारिद्र्यको
 दूर किये बिना और पुत्रके और भी अनेक प्रयोजनोंको पूर्ण
 किये बिना तथा हमारी सेवा किये बिना जाना उचित नहीं
 है ॥ ३२ ॥ तब उन सब द्विजोंने अपने पितासे कहा, कि-हम
 ऐसा उपाय बतावेंगे जिसे आप काममें लावेंगे (तो आपके सब
 काम पूर्ण होजावेंगे) ॥ ३३ ॥ तुम इस महत्त्व भरे श्लोकको
 निष्पाप राजा ब्रह्मदत्तको और उसके मन्त्रियोंको सुनाना ३४
 है नात ! तो वह प्रसन्न होकर तुमको बहुतसे ग्राम भोग और
 तुम्हारी इच्छानुसार भन देगा, हे तात ! अब तुम इच्छानुसार
 जाओ ॥ ३५ ॥ ये इस प्रकार कह कर और उन गुरु (पिता)
 की पूजा रुकके योगधर्मका सेवन करते २ मुक्त होगए ॥ ३६ ॥
 नईसर्वा अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥

मार्कण्डेय उवाच । ब्रह्मदत्तस्य तनयः स वैभ्राजस्त्वजायत ।
 योगात्मा तपसा युक्तो विष्वक्सेन इति श्रुतः ॥ १ ॥ कदाचिद्
 ब्रह्मदत्तस्तु भार्यया सहितो वने । विजहार महृष्टात्मा यथा शच्या
 शचीपतिः ॥ २ ॥ ततः पिपीलिकरुतं स शुश्राव नराधिपः ।
 कामिनीं कामिनस्तस्य याचतः क्रोशतो भृशम् ॥ ३ ॥ श्रुत्वा तु
 याच्यमानां तां क्रुद्धां मूढमां पिपीलिणाम् । ब्रह्मदत्तो महाहास-
 मरुस्मादेव चाहसत् ॥ ४ ॥ ततः सा सन्नतिर्दीना व्रीडितेवा-
 भवत्तदा । निराहारा बहुतिथं बभूव वरवर्णिनी ॥ ५ ॥ प्रसाद्य-
 माना भर्त्रा सा तमुवाच शुचिस्मिता । त्वया च हसिता राज-
 न्नाहं जीवितुमुत्सहं च तत्कारणमाचरुषां न च सा श्रद्धान्ति

मार्कण्डेयजीने कहा, कि-वह विभ्राज ब्रह्मदत्तका पुत्र वन
 कर उत्पन्न हुआ, वह तपस्वी योगात्मा (उस जन्ममें) विश्व-
 वसेन नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ १ ॥ एक समय शचीपति इन्द्रके
 इन्द्राणी शचीके साथ रमण करनेकी समान ब्रह्मदत्त अपनी
 भार्याके साथमें लेकर प्रसन्न मनसे उस वनमें रमण करने
 लगा ॥ २ ॥ उस समय उसने कामवश होकर अपनी चीटीसे मार्थना
 करने एक चीटेके बड़े दीनता भरे स्वरको सुना ॥ ३ ॥ जब
 उसने मूढम चीटीके याचना करने पर क्रोध करती हुई देखा
 तब ब्रह्मदत्त एक साथ बड़े जोरसे हँस पड़ा ॥ ४ ॥ उस
 समय सन्नति लज्जित सी होगई और उस वरवर्णिनीने
 दीन वन कर बहुत दिन तक भोजन करना छोड़ दिया ॥ ५ ॥
 जब उसके स्वामीने उसको मनाया तब उस पवित्र हास्य वाली
 ने उससे कहा, कि-हे राजन् ! आपने मेरी हँसीकी है, अब एव
 में जीवित रहना नहीं चाहती ॥ ६ ॥ तब राजाके कारण बताने
 पर भी उमने विश्वास नहीं किया और उसने कोपमें भर कर
 कहा, कि-मनुष्यमें ऐसी शक्ति (सब प्राणियोंके शब्दोंको

तत् । उवाच चैनं कुपिता नैप भावोऽस्ति मानुषे ॥ ७ ॥ को वी
 पिगीलिकरुतं मानुषो वेत्तुमर्हति । ऋते देवपसादाद्वा पूर्वजाति-
 कृतेन वा ॥ ८ ॥ तपोवलेन वा राजन् विद्यया वा नराधिप ।
 यत्रेप वी मभावभ्ते सर्वासत्त्वरुतज्ञता ॥९॥ यथाऽहमेतज्जानीयां
 तथा प्रत्याययस्व भाम् । प्राणान् वापि परित्यज्ये राजन् सत्येन
 ते शपे ॥ १० ॥ ॥ तत्तस्या वचनं श्रुत्वा महिष्याः परुषात्तरम् ।
 स राजा परमापन्नो देवश्रेष्ठपगात्ततः ॥ ११ ॥ शरण्यं सर्व-
 भूतेशं भक्त्या नारायणं हरिम् । समाहितो निराहारः पद्-
 रात्रेण महायशाः ॥ १२ ॥ ददर्श दर्शने राजा देवं नारायणं
 मधुम् । उवाच चैनं भगवान् सर्वभूतानुकम्पकः ॥ १३ ॥ ब्रह्मदत्त
 मभाने त्वां कल्याणं समवाप्स्यसि । इत्युक्त्वा भगवान् देवस्तत्रै-
 जाननेकी शक्ति) नहीं होसकती ॥ ७ ॥ देवताओंकी कृपाके
 बिना अथवा पूर्वजन्ममें किये हुए तपके बिना अथवा (सब
 प्राणियोंके शब्दको जानने वाली विद्याको पाये बिना ऐसा कौन
 मनुष्य है जो चीटीकी बोलीको समझ सके ? यदि आपमें सब
 प्राणियोंकी बोलीको समझनेकी शक्ति है तो मैं जिस प्रकार
 इस बात पर विश्वास कर सकूँ तैसा करिये हे राजन् ! यदि
 आप ऐसा नहीं करोगे तो हे राजन् ! मैं सत्यकी शपथ खाकर
 कहती हूँ, कि-मैं अपने प्राणोंको छोड़ दूंगी ॥ ८-१० ॥ रानी
 के इन कठोर वचनोंको सुनकर, वह राजा बड़ी भारी विपत्तिमें पड़
 गया और उसने शरणागतरक्तक सब भूतोंके स्वामी देवश्रेष्ठ
 नारायण हरिकी शरण ली जब उस महायशस्वी राजाको साव-
 धान होकर निराहार रहते हुए छः दिन बीत गए ॥ ११-१२ ॥
 तब उसके पशु नारायण देवने दर्शन दिया फिर सब प्राणियों
 पर दया करने वाले भगवान् उससे कहने लगे, कि-॥ १३ ॥
 हे ब्रह्मदत्त ! प्रातःकाल होने पर तेरा कल्याण होगा इतनी बात

वान्तरधीयत ॥ १४ ॥ चतुर्णान्तु पिता गोऽसौ ब्राह्मणानां महात्म-
नाम् । श्लोकं सोऽधीत्य पुत्रेभ्यः कृतकृत्य इवाभवत् ॥ १५ ॥
स राजानमथान्विच्छन् सहमन्त्रिणमच्युतमान ददर्शान्तरं किञ्चि-
च्छ्लोकं श्रावयितुं तदा ॥ १६ ॥ अथ राजा सरःस्नातो लब्ध्वा
नारायणाद्वरम् । प्रदिवेश पुरीं मीतो रथमारुह्य काञ्चनम् ॥ १७ ॥
तस्य रश्मीन् प्रत्यगृह्णात् कण्डरीको द्विजर्षभः । चामरं व्यजनं
चापि बाभ्रव्यः समवाक्षिपत् ॥ १८ ॥ इदमन्तरमित्येव ततः स
ब्राह्मणस्तदा । श्रावयामास राजानं श्लोकं तं सचिवो च
तौ ॥ १९ ॥ सप्तव्याधा दशार्णेषु मृगाः कालंजरे गिरौ । चक्र-
वाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ २० ॥ तेऽभिजाताः कुरु-
क्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । मस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसी-
कद्द कर भगवान् तर्हो ही अन्तर्धानं हंगण ॥ १४ ॥ उधर जो
चारों महात्मा ब्राह्मणोंका पिता था वह पुत्रोंसे श्लोकको पढ़कर
कृतकृत्यसा होगया ॥ १५ ॥ और वह कुछ भी विलंब न करके
उस अच्युत राजा और उसके मन्त्रियोंको श्लोक सुनानेके लिये
उनको हूँढने लगा ॥ १६ ॥ इतनेमें ही राजा भी नारायणसे
वर पानेके अनन्तर सरोवरमें स्नान कर सुवर्णमय रथमें बैठकर
पूसन्न होता हुआ अपनी नगरीमें घुसा ॥ १७ ॥ उस समय
उसके घोड़ोंकी लगामोंको ब्राह्मणश्रेष्ठ कण्डरीक धाम रहा था
और बाभ्रव्य चमर व्यञ्जन हुला रहा था १८ इसी अवसरमें
उस ब्राह्मणने, उस राजा और उसके दोनों मन्त्रियोंको श्लोक
सुनाये १९ कि- (उनका अर्थ यह है; कि-) जो दशार्ण देशमें
व्याधे वन कर उत्पन्न हुए थे और कालंजर पर्वतपर मृग वन
कर उत्पन्न हुए और शरद्वीपमें चक्रवाक हुए थे और मानसरो-
वरमें हंस हुए थे वे इस समय कुरुक्षेत्रमें वेदपारगामी ब्राह्मण
होनेके पीछे लम्बे मार्गमें चले गए हैं अर्थात् युक्तहंगण हैं उनमेंके

दथ ॥ २१ ॥ तच्छ्रुत्वा मोहमगमद् ब्रह्मदत्तो नराधिपः सचि-
 वश्चास्य पाञ्चान्यः कण्डरीकश्च भारत ॥ २२ ॥ स्रस्तरश्मि-
 प्रतोर्दोर्तो पतितव्यंजनावुर्भीदृष्ट्वा बभूवुस्वस्थाः पाँराश्च सुहृद-
 स्तथा ॥ २३ ॥ मूहूर्तमेव राजा स सह ताभ्यां रथे स्थितः ।
 प्रतिलभ्य ततः संज्ञा प्रत्यगन्धदरिदम ॥ २४ ॥ नतस्ते तत्सरः
 स्मृत्वा योगन्त मुपलभ्य च । ब्राह्मणं विपुलैरर्थैर्भोगैश्च समयो-
 जयन् ॥ २५ ॥ अभिषिच्य स्वराज्ये तु विश्वक्सेत्रमरिन्द-
 मम् । जगाम ब्रह्मदत्तोऽथ सदारी वनमेव ह ॥ २६ ॥ अर्थेन
 सन्नतिर्धारा देवलस्य सुता तदा । उवाच परमप्रीता योगा-
 द्नगतं नृपम् ॥ २७ ॥ जानत्या ते महाराज पिपीलिकरुतज्ञताम्

वाकी तम तीन क्यों कष्ट पारहे हो २०-२१ राजा ब्रह्मदत्त इन श्लोकों
 को सुन कर मोहको प्राप्त होगया और हे भारत ! उसरु मन्त्री
 पाञ्चान्य और कण्डरीक भी विचारमें पड़गए ॥ २२ ॥ उस
 समय नगरनिवासी और मित्र (राजाको) और जिनके हाथमें
 से लगामें और चाबुरु छूट गया है तथा जिनके हाथसे व्यञ्जन
 गिर पड़ा था ऐसे उन दोनों मन्त्रियोंको देखकर खिन्न होगए २३
 वह अरिदमन राजा रथमें त्तण भर मूर्च्छितसा रहकर होशमें
 आगया और उसके मन्त्री भी होशमें आगए ॥ २४ ॥ इसके
 उपरान्त उन तीनोंको उस सरोवरका ध्यान आगया और पूर्व-
 जन्मके योगका भी स्मरण आगया तब उन्होंने उस ब्राह्मणको
 बहुतसा धन और भोगके पदार्थ दिये फिर राजा अपने राज्य
 पर अरिदमन विश्वक्सेनका अभिषेक कर अपनी स्त्रीको साथमें
 लेकर वनको चला गया २६ योग धारण कर वनमें आने पर
 परम प्रसन्न होती हुई देवलकी पुत्री धीर सन्नतिने राजासे
 कहा ॥ २७ ॥ कि हे महाराज ! मैं यह जानती थी, कि आप
 चीटोफी रोलीको समझ सरुते है तब भी मैंने आपको कामोंमें

चोदितः क्रोधमुद्दिश्य सक्तः कामेषु वै मया ॥ २८ ॥ इतो
 वयं गमिष्यामो गतिमिष्टामनुत्तमाम् । नव चान्तर्हितो योगस्ततः
 संस्मारितो मया ॥ २९ ॥ स राजा परमप्रीतः पत्न्याः श्रुत्वा
 वचस्तदा । प्राप्य योगं बलादेव गतिं प्राप सुदुर्लभाम् ॥ ३० ॥
 कण्डरीकोऽपि धर्मात्मा सांख्ययोगपनुत्तमम् । प्राप्य योगमतिः
 सिद्धो विशुद्धस्तेन कर्मणा ॥ ३१ ॥ क्रमं प्रणीय पांचाल्यः शिष्यां
 चोत्पाद्य केवलाम् । योगाचार्यगतिं प्राप यशश्चाप्यं महातपाः ३२
 एवमेतत् पुरा वृत्तं मम प्रत्यक्षमच्युत । तद्धारयस्व गांगेय श्रेयसा
 योचयसे ततः ॥ ३३ ॥ ये चान्ये धारयिष्यन्ति तेषां चरितमुत्त-

आसक्त देखकर क्रोधके बहानेसे आपको (आपके पूर्वजन्मके
 योगका स्मरण करानेके लिये) प्रेरित किया था (पुराणोंमें प्रसिद्ध
 है, कि-कौशिकके पुत्रोंने जिस गौका पितरोंके लिये अभ्युत्थण
 किया था वही गौ इस जन्ममें ब्रह्मदत्तकी पत्नी बनी थी, और
 उसने उपकार करनेके लिये राजाको योगका स्मरण दिलानेकी
 की चेष्टा की थी) ॥ २८ ॥ अब हम यहाँसे अपनी चाही हुई
 परमगतिको पावेंगे तुम्हें योगका स्मरण नहीं रहा था, उसका
 मैंने आपको स्मरण दिला दिया ॥ २९ ॥ वह राजा अपनी पत्नी
 की बात सुन कर परम प्रसन्न हुआ और उसने योगको पाकर
 उस बलसे अतिदुर्लभ गति पाई ॥ ३० ॥ धर्मात्मा कण्डरीक भी
 अतिश्रेष्ठ सांख्य योगको पाकर योगनिष्ठ हो उस योगरूपविशुद्ध
 कर्मसे शुद्ध होगया ॥ ३१ ॥ पाञ्चाल्यने क्रमको रचा और शिष्या
 को उत्पन्न किया तब महातपस्वी योगाचार्यकी गतिको प्राप्त
 हुए और उन्होंने अच्छा यश पाया ॥ ३२ ॥ हे अच्युत ! इस
 प्रकार यह श्राद्धका फल मेरे सामने हुआ था, तू इसको कर तो
 तेरा कल्याण होगा ॥ ३३ ॥ दूसरे मनुष्य भी यदि इन वाग्दुष्ट
 आदिके चरित्रको सुनें तो वे कभी तिर्यक्योनि उत्पन्न नहीं

प्रम् । तिर्यग्योनिषु ते जातु न गमिष्यन्ति कर्हिचित् ॥ ३४ ॥
 श्रुत्वा चेदमुपाख्यानं महार्थं महतां गतिम् । योगधर्मो हृदि सदा
 परिघर्तति भारत ॥ ३५ ॥ स तेनैवानुबन्धेन कदाचित्त्वभते
 शमम् । ततो योगगतिं याति शुद्धां तां भुवि दुर्लभाम् ॥ ३६ ॥
 वैशम्पायन उवाच । एवमेतत् पुरा गीतं मार्कण्डेयेन धीमता ।

होंगे ॥ ३४ ॥ हे भारत ! श्रेष्ठ पुरुषोंको गति देने वाले इस
 उपाख्यानको सुनने पर योगधर्म हृदयमें भासने लगता है ॥ ३५ ॥
 प्राणी उस हृदयमें स्थित योगके द्वारा कभी शान्त होजाता है तो
 पृथ्वीमें दुर्लभ शुद्ध योगगतिको पाता है ॥ ३६ ॥ वैशम्पायनजी
 ने कहा, कि-श्राद्धके फलको लक्ष्यमें कर सोम (चन्द्रमा) का
 आप्यायन करनेके लिये बुद्धिमान् मार्कण्डेयजीने यह बात कही
 थी (अर्थात् श्राद्धका फल और पितरोंकी वृत्ति सोमके
 द्वारा ही होसकती है "तदेतद् देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति
 सोम देवताओंका अन्न है, देवता उसका भक्षण करते हैं" इस
 श्रुतिमें सोमको देवताओंका अन्न कहा है, अर्थात् देवभावको
 प्राप्त हुए पितर साक्षात् सोमका पान करते हैं) ॥ ३७ ॥
 भगवान् सोम ही लोकोंको परम वृत्ति देने वाले हैं, वृष्णिवंशकी
 बात चीत चल रही है तुम प्रसङ्गवश सोमके वंशको भी सुनो (यह
 शंका नहीं करनी चाहिये कि-चन्द्रमा देवभूत पितरोंको ही
 वृत्त कर सकते हैं, भूमिस्थ पितर उनसे कैसे वृत्त होसकते हैं?
 अतः एव "सोमो हि-भगवान् देवलोकस्याप्यायनं परम्-भग-
 वान् सोम ही लोकको वृत्त करने वाले हैं यह वचन व्यर्थ है;
 क्योंकि-सोम भूमिमें रहने वाले पितरोंको भी दिव्य औपधियों
 के द्वारा वृत्त करते हैं, क्योंकि-स्मृतिमें लिखा है, कि-"अग्नौ
 प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते-अर्थात् अग्निमें होमी हुई
 आहुति सूर्यके पास पहुँचती है" इस श्रुतिके अनुसार ब्राह्म-

श्राद्धस्य कलमुद्दिश्य सोमस्याप्यायनाय वै ३७ सोमो हि भगवान्
देवो लोकस्याप्यायनं परम् । वृष्णिवंशप्रसंगेन तस्य वंशं निबोध मे
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

वैशम्पायन उवाच । पिता सोमस्य वै राजञ्जज्ञेऽत्रिर्भगवा-
नृषिः । ब्रह्मणो मानसात् पूर्वं प्रजासर्गं विधित्सतः ॥१॥ तथात्रिः
सर्वभूतानां तस्यो स्वतनयैर्षु तः । कर्मणा मनसा वाचा शुभा-
व्येव चचार सः ॥२॥ अर्हितः सर्वभूतेषु धर्मात्मा संशितव्रतः ।
काष्ठकुड्यशिलाभूत ऊर्ध्वर्वाहुर्महाद्युनिः ॥ ३ ॥ अनुत्तरं नाम
तपो येन तप्तं महत्पुरा । त्रीणि वर्षसहस्राणि दिव्यानीति हि नः
श्रुतम् ॥४॥ तत्रोर्ध्वरेतसस्तस्य स्थितस्यानिमिषस्य च । सोमत्वं

एग्निस्मार्ताग्नि अर्धवा श्रौताग्निमें पितरोंने निमित्त होमी हुई
आहुति आदित्यको प्राप्त होती है और आदित्यकी सुपुत्रा
नाम वाली नाड़ीसे सोमका आप्यायन होना है उससे पितर तृप्त
होते हैं अत एव सर्वोसे पहिले होनेके कारण आदित्य श्राद्धदेव
कहलाते है । यह “ आदित्य विवस्वान् श्राद्धदेव ययो कहलाते
है” इसका उत्तर होगया) ॥३८॥ चौबीसवा अध्याय समाप्त २४

वैशम्पायनजीने कहा कि-प्रजाको रचना चाहने वाले
ब्रह्माजीके संकल्प करने पर सोमके पिता भगवान् अत्रि उत्पन्न
हुए ॥१॥ प्रजासर्गमें भगवान् अत्रि निष्ठावान् थे अत एव वह
और उनके पुत्र मनसा वाचा कर्मणा प्राणियोंका शुभ ही करते
थे ॥ २ ॥ हमने सुना है कि-उन सब भूतोंको पीडा देनेसे दूर
रहने वाले धर्मात्मा प्रशंसनीय व्रत करने वाले महाकान्तिमान्
मुनिने ऊपरको भुजा कर तय काठ भीत और शिलागी समान
स्थिर होकर तीन सहस्र दिव्य वर्षोंतक अननुत्तर नामक अर्थात्
न बोलनेका) तप किया था ॥३-४॥ हे भारत ! ऊर्ध्वरेता होकर

तनुरापेदे महासत्त्वस्य भारत ॥५॥ ऊर्ध्वमाचक्रमे तस्य सोमत्वं
 भावितात्मनः । नेत्राभ्यां वारि सुस्त्राव दशधा द्योतयद्दिशः । ६।
 तं गर्भं विधिना हृष्टा दश देव्यो दधुस्तदा । समेत्य धारयामासुर्न
 च ताः समशक्नुवन् ॥ ७ ॥ स ताभ्यः सहसैवाथ दिग्भ्यो गर्भः
 प्रभान्वितः । पपात भासयंल्लोक्नुन् शीर्ताशुः सर्वभावनः ॥८॥
 यदा न धारये शक्तास्तस्य गर्भस्य ता दिशः । ततस्ताभिः सहै-
 वाशु निपपात वसुन्धराम् ॥ ९ ॥ पतितं सोममालोक्य ब्रह्मा
 लोकपितामहः । रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्यया १०

तप करनेवाले नेत्रोंको न भीचनेवाले उन महाबलवान् अत्रिका
 शरीर सोमत्वको प्राप्त होगया (पलक न मारनेके कारण सूर्य आदि
 वाह्यज्योति रश्मियोंके धारण करनेसे वह उनकी समान बलवान्
 होगए और कीटभृंगन्यायसे ध्येयकी समान उनमें सोमका सा
 शुक्लभास्वरूप होगया, तपम्बीमें रजोगुण नहीं रहता है अत
 एव उनका रूप शान्तप्रकाशमय होगया था) ॥ ५ ॥ शुद्ध
 शान्तप्रकाश शुक्लभास्वरूप तेजसे रञ्जित शरीर वाले
 (भावितात्मा) मुनिका सोमत्व (उक्तप्रकारका तेज) ऊपर
 को चढ़ने लगा (वह किस प्रकार चढ़ने लगा यह दिखाते हैं)
 उनके नेत्रोंसे दश दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ (सोमरूप
 जल बहने लगा ॥ उसको प्रसन्न होती हुई दश दिशा देवियोंने
 इकट्ठी होकर गर्भविधिसे धारण कर लिया, परन्तु वे उस
 को धारण न कर सकी ॥ ७ ॥ तब (औपध आदिके द्वारा)
 सब लोकोंको आप्यायित करने वाला और शीतल किरणों
 वाला प्रभावान् गर्भ दिशाओंमेंसे सब लोकोंको प्रकाशित
 करता हुआ गिर पड़ा ॥८॥ जब दिशाएँ उनके गर्भको धारण
 न कर सकीं तब वह उनके साथ एक साथ भूमि पर गिर पड़ा ६
 लोकपितामह ब्रह्माजीने सोमको गिरा हुआ देख कर अर्थात्

स हि वेदमयस्तात धर्मात्मा सत्यसंग्रहः । युक्तो वाजिसहस्रेण
 सितेनेतीह नः श्रुतम् ॥ ११ ॥ तस्मिन्निपतिते देवाः पुत्रेऽन्वेः
 परमान्यनि । तुष्टपुत्रंक्षणः पुत्रा मानसाः सप्त ये श्रुताः ॥ १२ ॥
 तथैवांगिरसस्तत्र भृगुरेवात्मजैः सह । ऋग्भिर्यजुर्भिर्वहुलैरथर्वा-
 गिरसैरपि ॥ १३ ॥ तस्य संस्तूयमानस्य तेजः सोमस्य भास्वतः ।
 आप्यायमानं लोकांस्त्रीन् भासयामास सर्वशः ॥ १४ ॥ स तेन
 रथमुख्येन सामरातां वसुन्तराम् त्रिःसप्तकृत्वोऽतियशाश्चकाराभि-
 प्रदक्षिणम् ॥ १५ ॥ तस्य यच्च्यावितं तेजः पृथिवीमन्वपद्यत ।
 लतारूपसे स्थित देखकर लोकोंका हित करनेकी इच्छासे उसको
 रथ पर चढ़ा लिया ॥ १० ॥ हमने सुना है, कि-वह रथ वेद-
 मय था, अर्थात् उसमें काष्ठोंके स्थान पर वेद लगे हुए थे
 और धर्मात्मा था अर्थात् आकाशादि रूप था और सत्यसंग्रह
 था अर्थात् उससे ब्रह्मसाक्षात्कार किया जासकता है और
 उसमें (मन्त्ररूप) सहस्र घोड़े जुते हुए थे ॥ ११ ॥ अत्रिपुत्र पर-
 मात्माके गिरने पर ब्रह्माजीके प्रसिद्ध मानसिक सात पुत्र उनकी
 स्तुति करनेलगे (इस श्लोकमें सोमके विष्णुरूप बताया है
 इसीलिये याज्ञिक यज्ञमें सोमके रथके द्वारा लाकर उनका
 अतिथि सत्कार करनेके लिये वैष्णवी इष्टि किया करते हैं) १२
 इसी प्रकार अङ्गिरागोत्री भृगु और उनके पुत्र भी यजुर्वेदकी
 बहुतसी ऋचाओंसे तथा अथर्वङ्गिरस श्रुतियोंसे सोमकी स्तुति
 करनेलगे ॥ १३ ॥ प्रकाशवान् सोमका तेज स्तुति करने पर
 आप्यायित होकर तीनों-लोकोंको प्रकाशित करने लगा ॥ १४ ॥
 तब उन ऋति यशास्वी [ब्रह्माजीने]उस [सोमवान्] श्रेष्ठ रथमें
 बैठ कर समुद्र तककी पृथ्वीकी इक्कीस बार प्रदक्षिणाकी १५
 बस समय (रथके वेगसे) सोमका जो तेज पृथिवी पर गिर
 पड़ा उस तेजमेंसे प्रकाशित होती हुई औषधियों निकलने

औपध्वस्ताः समुद्रभूतास्तेजसा प्रज्वलन्त्युत ॥ १६ ॥ ताभि-
 र्धार्ग्यस्त्रयो लोकाः प्रजाश्चैव चतुर्विधाः । पोष्टा हि भगवान्
 सोमो जगतां जगतीपते ॥ १७ ॥ स लब्धतेजा भगवान् संस्त-
 वीस्तैश्च कर्मभिः । तपस्तेपे महाभाग पद्मानां दशतीर्दश ॥ १८ ॥
 हिरण्यवर्णा या देव्यो धारयन्त्यात्मना जगत् । निधिस्तासाम-
 भूद्देवः प्रख्यातः स्वेन कर्मणा । ततस्तस्मै ददां राज्यं ब्रह्मा ब्रह्म-
 विदाम्बरः । वीजौपधीनां विप्राणामपां च जनमेजय ॥ २० ॥
 सोऽभिपिक्तो महाराज राजराज्येन राजराट् । लोकांस्त्रोन भास-
 यामास स्वभासा भास्वतां वरः ॥ २१ ॥ सप्तविंशतिमिन्दोस्तु
 दान्तायिण्यो महाव्रताः । ददां प्राचेतसो दत्तो नन्त्राणीति या
 लर्गा ॥ १६ ॥ उन औपधियोंसे (देव पितृ और भू ये) तीन लोक
 और (मनुष्य पशु पत्नी तथा सर्प आदि) चार प्रकारकी प्रजा
 टिकी रहती है, हे राजन् ! भगवान् सोम इस प्रकार पृथिवीका
 पोषण करने वाले हैं ॥ १७ ॥ हे महाभाग ! सोमने स्तुतिमय
 कर्मोंसे तेजस्वी होकर सहस्र वर्षों तक तप किया ॥ १८ ॥
 जो चाँदीकी समान वर्णवाली देवियों जगत्को धारण कर रही
 हैं, चन्द्रदेव अपने कर्मसे उन सबके आकर (खान) प्रसिद्ध हैं
 (अर्थात् चन्द्रमा चाँदीकी समान श्वेत जलोंके आकर हैं, इसी
 लिये मणिके द्वारा चन्द्रमा जलको टपकाते हैं और सूर्य मणिके
 द्वारा अग्निको उत्पन्न करते हैं अत एव सूर्य तेजके आकर हैं
 औप चन्द्रमा जलकी निधि हैं) ॥ १९ ॥ तदनन्तर ब्रह्मवेत्ताओं
 में श्रेष्ठ ब्रह्माजीने चन्द्रमाको वीज औपध विप्र और जलोंका
 राज्य दे दिया ॥ २० ॥ हे महाराज ! जब चन्द्रमाका समा-
 प्त पर अभिषेक होगया तब वह प्रकाश करने वाले
 पदार्थोंमें श्रेष्ठ चन्द्रमा अपनी कान्तिसे तीनों लोकोंको प्रकाशित
 करने लगे ॥ २१ ॥ प्राचेताओंके पुत्र दत्तने अपनी सत्ताईस

त्रिदुः ॥ २२ ॥ स तत्प्राप्य महद्राज्यं सोमः सोमवतां वरः ।
समाजह राजसूयं सहस्रशतदक्षिणम् ॥ २३ ॥ होताऽस्य भग-
वानत्रिरभ्युर्भगवान् भृगुः । हिरण्यगर्भशोद्गाता ब्रह्मा ब्रह्मत्व-
पेयिषान् ॥ २४ ॥ सदस्यस्तत्र भगवान् हरिनारायणः स्वयम् ।
सनत्कुमारममुखैराद्यैर्ब्रह्मर्षिभिर्हृतः ॥ २५ ॥ दक्षिणामददात्
सोमस्त्रीज्ज्वाकानिति नः श्रुतम् । तेभ्यो ब्रह्मर्षिमुख्येभ्यः सद-
स्येभ्यश्च भारत ॥ २६ ॥ त सिनिश्च कुहूश्चैव द्युतिः पुष्टिः प्रभा-
वसुः । कीर्तिर्धृतिश्च लक्ष्मीश्च नव देव्यः सिपेविरे ॥ २७ ॥
प्राप्यावभृथमव्यग्रः सर्वदेवर्षिपूजितः । विरराजाधिराजेन्द्रो दशधा
भासयन् दिशः ॥ २८ ॥ तस्य तत्प्राप्यदुष्प्राप्य मैश्वर्यं मुनिसत्कृतम् ।

कन्याएँ चन्द्रमाको देदी थी, (प्राणी) उनको नक्षत्र कहते
हैं ॥ २२ ॥ पितरोंके स्वामियोंमें श्रेष्ठ सोमने बड़े भारी राज्य
को पाकर जिसमें एक लाख गौ दी जाती है, ऐसे राजसूय
यज्ञको किया ॥ २३ ॥ भगवान् अत्रि सोमके (यज्ञमें) होता
वने और भगवान् भृगु अभ्युर् वने और हिरण्यगर्भे (अगिरा
ऋषि) उद्गाता वने और वशिष्ठजी ब्रह्मा वने ॥ २४ ॥
सनत्कुमार आदि प्राचीन ब्रह्मर्षियोंने स्वयं भगवान् नारायण
हरिको ही सदस्य (सत्रह ऋत्विजों पर देख भाल करने
वाला) बनाया था ॥ २५ ॥ हे भारत ! हमने सुना है, कि-
उन ब्रह्मर्षियोंमें प्रधान सदस्योंको सोमने तीनों लोक दक्षिणा
में देदिये थे ॥ २६ ॥ सिनी (खण्डपर्वणीमें पहिली अमावस्या)
कुहू (खण्डपर्वणीमें उत्तरा अमावस्या), द्युति (खण्डपर्वणीमें
पूर्वा पूर्णिमा) पुष्टि (खण्डपर्वणीमें उत्तरा पूर्णिमा) प्रभावसु
कीर्ति धृति और लक्ष्मी ये नौ देवियों चन्द्रमाकी सेवा करने
लगीं ॥ २७ ॥ सब देवताओंसे पूजा पानेवाला और सब ऋषियों
से पूजा पाने वाला ब्राह्मणराज चन्द्रमा [उन नौ देवियोंके

सोमस्थाय बृहस्पतेः । पृच्छयमाना यदा देवैर्नाह सा साध्व-
साधु वा ॥ ४१ ॥ तदा तां शप्तुमारब्धः कुमारो दस्युहन्तमः ।
तं निवार्य ततो ब्रह्मा तारां पप्रच्छ संशयम् ॥४२॥ यदत्र तथ्यं
तद् ब्रूहि तारे कस्य सुनस्त्वयम् । सा प्राञ्जलिरुवाचेदं ब्रह्माणं
वरदं प्रभुम् ॥ ४३ ॥ सोमस्येति महात्मानं कुमारं दस्युहन्त-
गम् । ततस्तं मूढ्युपाघ्राय सोमो धाता प्रजापतिः॥ ४४ ॥ बुध
इत्यकरोन्नाम तस्य पुत्रस्य धीमनः । प्रतिकूलं च गगने समभ्यु-
त्तिष्ठते बुधः ॥ ४५ ॥ उत्पादयामास ततः पुत्रं वैराजपुत्रिका ।
तस्यापत्यं महाराजो बभूवैलः पुरुरवाः ॥ ४६ ॥ उर्वश्यां जज्ञिरे
यस्य पुत्राः सप्त महात्मनः । मसद्य धर्षितस्तत्र सोमो वै राज-
यत्तमाणा ॥ ४७ ॥ ततो यत्तमाभिभूतस्तु सोमः मन्त्रीणमण्डलः ।

अथवा बृहस्पतिका है? इस बातका तू ठीक २ बता, परन्तु देव-
ताओंके वृक्षने पर भी जब उसने भला बुरा कुछ उत्तर नहीं
दिया ॥ ४१ ॥ तब तो कुमार दस्युहन्तम उसको शाप देनेके
लिये तयार होगया तब ब्रह्माजीने उसको रोक कर तारासे इस
सन्देहको वृक्षा कि-॥ ४२ ॥ कि-हे तारेयह किसका पुत्र है,
इस बातको तू ठीक २ बता ? तब उसने दोनों हाथ जोड़ कर
वरदेने वाले प्रभु ब्रह्माजीसे कहा, कि-॥ ४३ ॥ यह महात्मा
कुमार दस्युहन्तम चन्द्रमाका पुत्र है, नव (गर्भके) धाता (अत-
एव) प्रजापति चन्द्रमाने उसके मस्तकको मूँच कर ॥ ४४ ॥
उस बुद्धिमान् पुत्रका बुध नाम रक्खा; यह बुध जब आकाशमें
उदय होता है, तब प्रतिकूल चेष्टा (उत्पात) करता है ॥४५॥
तदनन्तर वैराज मनुकी पुत्री इलाने बुधसे पुत्र उत्पन्न किया,
हे महाराज !वह पुत्र ऐल पुरुरवा हुआ ॥४६॥ महात्मा पुरुरवा
के उर्वशीने सान पुत्र उत्पन्न हुए, और (उद्धतता करनेके
कारण) राजयत्तमा रोगने सोम डठात् घेर लिया था ॥४७ ॥

जगाम शरणार्थीय पितरं सोऽत्रिमेव तु ॥ ४८ ॥ तस्य तत्ताप-
शमनं चकारात्रिमेहातपाः । स राजयत्तमणा मुक्तः श्रिया जज्वाल
सर्वतः ॥ ४९ ॥ एवं सोमस्य वा जन्म कीर्तितं कीर्तिवर्धनम् ।
वंशमस्य महाराज कीर्त्यमानं च मे शृणु ॥ ५० ॥ धन्यमारोग्य-
मायुष्यं पुण्यं संकल्पसाधनम् । सोमस्य जन्म श्रुत्वाव पापेभ्यो
विममुच्यते ॥ ५१ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

वैशम्पायन उवाच । बुधस्य तु महाराज विद्वान् पुत्रः पुरु-
रवाः । तेजस्वी दानशीलश्च यज्वा विपुलदक्षिणः ॥ १ ॥ ब्रह्म-
वादी पराक्रान्तः शत्रुभिर्युधि दुर्जयः । आहर्ता चाग्निहोत्रस्य
यज्ञानां च महीपतिः ॥ २ ॥ सत्यवादी पुण्यमतिः काम्यः संवृत-
यत्तमा (नपे दिक्)से दवने पर चन्द्रमाका मण्डल घटने लगा तब
वह अपने पिता अत्रिकी शरणमें पहुँचा ॥४८॥ तब महातपस्वी
अत्रिने उसको तापको दूर कर दिया तब चन्द्रमा राजयत्तमासे
मुक्त होकर पूर्णरीतिसे प्रकाशित होने लगा ॥ ४९ ॥ हे महा-
राज ! इस प्रकार मैंने तुमसे कीर्तिको बढ़ाने वाला चन्द्रमाका
जन्म कहा, अब आप मेरे मुखसे इस चन्द्रमाके वंशमें सुनिये ५०
मनुष्य धन देने वाले आरोग्य देने वाले आयु बढ़ाने वाले, पुण्य
और संकल्पोंको पूर्ण करने वाले इस चन्द्रजन्मको सुन कर सब
पापोंसे मुक्त होजाता है ॥५१॥ पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त २५

वैशम्पायनजीने कहा, कि हे महाराज ! बुधका विद्वान् पुत्र
पुरुवा तेजस्वी दान देनेके स्वभाव वाला यजन करने वाला
बहुतसी दक्षिणा देने वाला ब्रह्मकी बातें करने वाला और परा-
क्रमी था, युद्धमें शत्रु उसको कठिनतासे जीत सकते थे, वह
राजा अग्निहोत्र और यज्ञोंको करने वाला था ॥ १-२ ॥

मैथुनः । अतीव त्रिषु लोकेषु यशसाऽप्रतिमः सदा ॥ ३ ॥ तं
 ब्रह्मवादिनं ज्ञान्तं धर्मज्ञं सत्पचादिनम् । उर्वशी वरयाभास हित्वा
 मानं यशस्विनी ॥१॥तया सहावसद्राजा वर्षाणि दश पञ्च च ।
 पञ्च षट् सप्त चाष्टौ च दश चाष्टौ च भारत ॥ ५ ॥ वने चैत्ररथे
 रम्ये तथा मन्दाकिनीतटे । अलकायां विशालायां नन्दने च
 वनोत्तमे ॥ ६ ॥ उचरान् स कुरुन् प्राप्य मनोरथफलद्रुमान् ।
 गन्धमादनपादेषु मेरुपृष्ठे तथोचरे ॥ ७ ॥ एतेषु वनमुख्येषु सुरै-
 राचरितेषु च । उर्वश्या सहितो राजा रेमे परमया मुदा ॥ ८ ॥
 देशे पुण्यतमे चैव महर्षिभिरभिप्लुते । राज्यं च कारयाभास
 प्रयागे पृथिवीपतिः ॥९॥तस्य पुत्रा वभ्रुवुस्ते सप्त देवसुतोपमाः ।
 दिवि जाता महात्मान आयुर्धोमानपावसुः ॥ १० ॥ विश्वायुश्चैव

और वह सत्यवादी पुण्यबुद्धि, कामना करने योग्य (चाहने
 योग्य) और मैथुन धर्ममें तत्पर रहने वाला था और वह तीनों
 लोकोंमें अप्रतिम (अद्वितीय) यशस्वी था ॥३॥उर्वशी अप्सराने
 अपने मानको त्यागकर ब्रह्मवादी क्षमापरायण धर्मज्ञ तथा सत्य-
 वादी राजा पुरूरवाको स्वीकृत कर लिया था ॥ ४ ॥ राजा
 उसके साथ दश वर्ष तक रमणीय चैत्ररथ वनमें और पाँच वर्ष
 तक अलकामें और छः वर्ष तक विशालामें और सात वर्ष तक
 श्रेष्ठ नन्दनवनमें और आठ वर्ष तक मनोरथरूपफलको देनेवाले
 वृक्षाँ वाले उत्तर कुरुदेशोंमें और दश वर्ष तक गन्धमादनके
 शिखरों पर और हे भारत ! उत्तरमेरुपृष्ठ पर आठ वर्ष तक
 रहा था ॥५-७॥ राजा इन देवताओंसे सेवित वनोंमें उर्वशीके
 साथ परममसन्नतासे रमण करता रहा ॥ ८ ॥और उस पृथ्वी-
 पतिने (उर्वशीके साथ) महर्षियोंसे प्रशंसित पुण्यमय प्रयाग
 में राज्य किया था ॥ ९ ॥ उर्वशीके स्वर्गमें बुद्धिमान् आयु
 अमावसु धर्मात्मा-विश्वायु श्रुतायु द्वायु च्युतायु और शतायु

धर्मात्मा श्रुतायुध तथाऽपरः । दृढायुध वनायुध शतायुधोर्वशी-
सुताः ॥११॥ जनमेजय उवाच । गान्धर्वी चोर्वशी देवी राजानं
मानुषं कथम् । देवानुत्सृज्य संप्राप्ता तन्मे ब्रूहि बहुश्रुत ॥ १२॥
वैशम्पायन उवाच । ब्रह्मशापाभिभूता सा मानुषं समपद्यत ।
ऐलं सा तु वरारोहा समयात् समुपास्थिता ॥ १३ ॥ आत्मनः
शापभोजार्थं समयं सा चकार ह । अनग्नदर्शनं चैव सकामायां
च मैथुनम् ॥ १४ ॥ द्वौ मेपौ शयनाभ्याशो सदा बद्धौ च तिष्ठतः।
घृतमात्रा तथाहारः कालमेकं तु पार्थिव ॥ १५ ॥ यद्येष समयो
राजन् यावत् कालं च ते दृढः । तावत् कालं तु वत्स्यामि त्वत्तः
समय एव नः ॥ १६ ॥ तस्यास्तं समयं सर्वं स राजा समपाल-
यत् । एवं सा वसते तत्र पुरुरवसिभाविनी ॥१७॥ वर्षाण्येको-

नापक सात पुत्र देवपुत्रोंको समान उत्पन्न हुए ॥ १०-११ ॥
जनमेजयने कहा, कि-हे बहुश्रुत ! उर्वशी देवी तो अप्सरा थी
तो उसने देवताओंको त्याग कर इस मनुष्य राजाको क्यों मनो-
नीत (पसंद) किया था १ वैशम्पायनजीने कहा कि-शापके कारण
उर्वशी मनुष्यके पास आई थी, वह वरारोहा इलाके पुत्रके पास
मतिज्ञा करा कर रही थी ॥ १३ ॥ उसने शापसे छूटनेके लिये
प्रतिज्ञा (शर्त) करवाली थी कि-मैं तुमको नंगा न देखूँ और
मेरे सकाम होने पर ही आप मैथुन करें ॥ १४ ॥ और मेरे
पलंगके पास सदा दो मेढे बँधे रहें और हे राजन् ! मैं सर्वदा
दिनमें एक बार थोड़ासा घी खाऊँगी ॥ १५ ॥ हे राजन् !
जब तक आप इस प्रतिज्ञाका मजबूतीके साथ पालन करते रहेंगे
तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, यह मैं प्रतिज्ञा करती हूँ ॥१६॥
राजा उसकी सब शर्तोंका पालन करता रहा, इस प्रकार वह
भाविनी पुरुरवाके यहाँ रहती रही ॥१७॥ शापके कारण राजा
मैं आसक्त होकर उर्वशीको जब उनसठ वर्ष वीत गए, तब तो

नपष्टिस्तु तत्सक्ता शापमोहिता । उर्वर्या मानुषस्थायां गन्धर्वा-
 रिचन्तयान्विताः ॥ १८ ॥ गन्धर्वा ऊचुः । चिन्तयध्वं महाभागा
 यथा सा तु वरांगना । समानच्छेत् पुनर्देवानुर्वशी स्वर्गभूष-
 णम् ॥ १९ ॥ ततो विश्वावसुर्नाम तत्राह वदतां वरः । मया तु
 समयस्ताभ्यां क्रियमाणः श्रुतः पुरा ॥ २० ॥ व्युत्क्रान्तसमयं
 सा नौ राजानं त्यक्ष्यते यथा । तदहं वेद्व्यशेषेण यथा भेत्स्य-
 त्सौ नृपः ॥ २१ ॥ ससहायो गमिष्यामि युष्माकं कार्यसिद्धये ।
 एवमुक्त्वा गतस्तत्र प्रतिष्ठानं महायशाः ॥ २२ ॥ निशायामथ
 चागम्य मेयमेकं जहार सः । मातृवद्वर्तते सा तु मेययोश्चारु-
 हासिनी ॥ २३ ॥ गन्धर्वागमनं श्रुत्वा शापान्तं च यशस्विनी ।
 राजानमब्रवीत्तत्र पुत्रो मेऽहियतेति सा ॥ २४ ॥ एवमुक्तो विनि-

गन्धर्वोंको मनुष्योंमें स्थित उर्वशीकी चिन्ता होने लगी ॥ १८ ॥
 गंधर्वोंने कहा, कि-हे महाभागों! वरांगना उर्वशी देवताओंमें फिर
 किस प्रकार आवे, इसका उपाय करिये, क्योंकि-वह स्वर्गका
 भूषण है ॥ १९ ॥ तब विश्वावसु नामक बोलने वालोंमें श्रेष्ठ
 गन्धर्वने कहा, कि-उन दोनोंने जो प्रतिज्ञा की है उसको मैंने
 सुना है ॥ २० ॥ वह राजाके प्रतिज्ञा भंग करने पर उसको छोड़
 देगी ? वह राजा जिस प्रकार अपनी प्रतिज्ञाको तोड़ सकता है
 उस उपायको मैं भली प्रकार जानता हूँ ॥ २१ ॥ मैं तुम्हारे
 कामको सिद्ध करनेके लिये, अपने सहायकोंको साथमें लेकर
 तहाँ जाऊँगा वह महायशस्वी इस प्रकार कह कर प्रयागको
 चला गया ॥ २२ ॥ और उसने रात्रिमें तहाँ पहुँच कर एक
 मेढेको चुग लिया, च.रुहासिनी उर्वशी उन मेढों पर माताकी
 समान स्नेह करती थी ॥ २३ ॥ यशस्विनी उर्वशीने गंधर्वोंके
 आगमनको सुनकर विचारा, कि-अब मेरे शापके अन्त होनेका
 समय आगया, तब उसने राजासे कहा, कि-हे राजन्! ये मेरेपुत्र

श्रित्य नग्नो नैवोदतिष्ठत । नग्नं मां द्रक्ष्यते देवी समयो वितथो
 भवेत् ॥ २५ ॥ ततो भूयस्तु गन्धर्वा द्वितीयं मेघमाददुः । द्वितीये
 तु हृते मेघे ऐलं देव्यव्रवीदिदम् ॥ २६ ॥ पुत्रो मेघहृतो राज-
 न्ननाथाया इव मभो।एवमुक्तस्तयोन्ध्याय नग्नो राजा मघावितः २७
 मेघयोः पदमन्विन्ञ्चन गन्धर्वं विन्दप्युत । उत्पादिता सुपहती
 यया तद्भवन् महत् ॥ २८ ॥ प्रकाशितं वा सहसा ततो नग्नम-
 नौत्तत । नग्नं हृष्टा तिरोभूता साऽप्सरा कामरूपिणी ॥ २९ ॥
 उत्सृष्टाचुरणा हृष्टा राजा गृह्यागतो गृहे । अपश्यन्नुर्दर्शां तत्र
 विललाप सुदुःखितः ॥ ३० ॥ चचार पृथिवी सर्वा मार्गमाण
 इतस्ततः । अथापश्यत् स तां राजा कुसुक्तेन महाबलः ॥ ३१ ॥

को भगा कर लिये जारहे हैं ॥ २४ ॥ यह कहने पर भी यह
 यह विचार कर नंगा नहीं उठा कि—यदि यह देवी मुझे नंगा
 देख लेगी तो पतिव्रता भूँठी होजावेगी ॥ २५ ॥ इसी समय
 गन्धर्व दूसरे मेढ़ेको भी ले जाने लगे, दूसरे मेढ़ेके चुराने
 पर देवीने कडा, कि—॥ २६ ॥ हे राजन् ! अनाथा स्त्रीकी
 समान मेरे पुत्रको छीन लिया गया, उर्वशीके इस प्रकार
 कहने पर-राजा नंगा ही उठ कर मेढोंके पदचिन्होंके पीछे
 पीछे दौड़ा, इसी समय गंधर्वोंने भी बड़ी भारी विजली
 चमकाई तब उस समय वह बड़ाभारी भवन एक साथ प्रका-
 शित होगया, तब तो उर्वशीने राजाको नङ्गा देखा, वह काम-
 रूपिणी अप्सरा राजाको नङ्गा देखते ही अन्तर्धान होगई २७-२९
 उधर राजा भी(गन्धर्वोंके) छोड़े हुए मेढोंको साथमें ले घरमें
 जा घुसा, कि—तो उसने तहाँ उर्वशीको नहीं देखा, तब तो वह
 दुःखित होकर विलाप करने लगा ॥ ३० ॥ तब वह राजा
 उसको खोजता हुआ पृथ्वी पर सर्वत्र फिरने लगा, कुछ समयके
 अनन्तर उस महाबली राजाने उस शोभना अप्सराको, प्लक्षतीर्थ

सन्नतीर्थे पुष्करिण्यां हैमवत्यां समाप्लुताम् । क्रीडन्तीमप्सरो-
भिरच पंचभिः सह शोभनाम् । तां क्रीडन्तीं ततो दृष्ट्वा विललाप
सुदुःखितः । सा चापि तत्र तं दृष्ट्वा राजानमचिदूरतः ॥ ३३ ॥
उर्वशी ताः सखीः प्राह स एष पुरुषोत्तमः । यस्मिन्नहमवात्सं
वै दर्शयामास तं नृपम् ॥ ३४ ॥ समाविश्यास्तु तां सर्वाः पुन-
रेव नराधिप । जायेह तिष्ठ मनसा घोरे वचसि तिष्ठ ह ॥ ३५ ॥
एवमादीनि सूक्तानि परस्परमभाषत । उर्वशी चाम्रवीदैर्न स-
गर्भाऽहं त्वया प्रभो ॥ ३६ ॥ संवत्सरात् कुमारस्ते भविष्यन्ति
न संशयः । निशामेर्का च नृपते निवत्स्यसि मया सह ॥ ३७ ॥
हृतो जगाम राजाऽथ स्वपुरं सुमहायशाः । गते संवत्सरे भूय
उर्वशी पुनरागमत् ॥ ३८ ॥ उपितरच तया सार्धं एकरात्रं महा-

की हैमवती नामकी पुष्करिणीमें स्नान कर अपनी पाँच सखियों
के साथ क्रीड़ा करती हुई देखा ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ तब तो उसको
क्रीड़ा करती हुई देख राजा दुःखित होकर विलाप करने लगा
उर्वशीने राजाको समीपमें ही देखकर ॥ ३३ ॥ अपनी सखियोंसे
यह कहकर राजाको दिखाया, कि यह वही पुरुषोत्तम है कि-
जिसके पास मैं रही थी ॥ ३४ ॥ हे नराधिप ! उस समय
वे सब (उर्वशीके पुनर्गमनकी आशंकासे) उद्दिग्ण होकर पर-
स्परमें कहने लगीं कि-“जायेह मनसा तिष्ठ घोरे वचसि तिष्ठह”
अर्थात् तू यहाँ ही रहकर सन्तान उत्पन्न कर और अपने घोर
वचन पर दृढ़ रह और इस राजाके पास मनसे ही वर्तमान
रह’ उस समय उर्वशीने इलापुत्रसे कहा कि-हे प्रभो ! मैं
आपके द्वारा सगर्भा हूँ (अब पत्र गमन करने योग्य नहीं हूँ) ३६
एक वर्षमें आपके कुमार उत्पन्न होंगे हे राजन् ! उस समय मैं
एक रात्रिके आपके पास रहूँगी ॥ ३७ ॥ (तब) वह महा-
यशस्वी राजा (अपना चित्त) देकर अपने नगरमें आगया

यशाः । उ-रियथाव्रवीदैर्न गन्धर्वा वरदास्तव ॥ ३६ ॥ तान्
 वृणीष्व महाराज ब्रूहि चैनांस्त्वमेव हि । वृणीष्व समतां राजन्
 गन्धर्वाणां महात्मनाम् ॥ ४० ॥ तथेत्युक्त्वा वरं वव्रे गन्धर्वाश्च
 तथाऽस्त्विति । पूरयित्वाऽग्निना स्थालीं गन्धर्वाश्च तमब्रुवन् ॥ ४१ ॥
 अनेनेष्टः सलोकान्नः माप्स्यमि त्वं नराधिप । तानादाप कुमा-
 रांस्तु नगरायोपचक्रमे ॥ ४२ ॥ गित्तिप्याग्निमरण्ये तु सपुत्रस्तु
 गृहं ययी । स त्रेताग्निं तु नापश्यदश्वत्थं तत्र दृष्टवान् ॥ ४३ ॥
 शमीजातं तु तं दृष्ट्वा अश्वत्थं विस्मितस्तदा ॥ गन्धर्वेभ्यस्तदाशंस-
 दग्निनाशं ततस्तु सः ॥ ४४ ॥ श्रुत्वा तमर्थमखिलमरणीं तु
 समादिशत् । अश्वत्थादरणीं कृत्वा मथित्वाऽग्निं यथाविधि ।

वर्ष पर वीतने पर उर्वशी फिर राजाके पास आई ॥ ३६ ॥ महा-
 यशस्वी पुरूरवा भी उनके साथ एक रात्रि रहा था, इसके अनन्तर
 उर्वशीने पुरूरवासे कहा, कि-गन्धर्व आपको वर देना चाहते
 हैं ॥ ३६ ॥ अब आप वर माँग लीजिये, हे महाराज ! आप
 अपने आप कह कर इन महात्मा गन्धर्वोंकी सपता माँग
 लीजिये ॥ ४० ॥ तब पुरूरवाने तथास्तु कह कर गन्धर्वोंसे वर
 माँगा, गन्धर्वोंने थालीमें अग्नि भर कर उससे कहा, कि- ४१
 हे राजन् ! इस अग्निसे यज्ञ करके तुम हमारे लोकमें आयोगे,
 तब वह राजा अपने पुत्रोंको लेकर नगरीकी ओर चला ॥ ४२ ॥
 (मार्गमें) उसने अग्निको रख दिया और अपने पुत्रोंको लेकर
 घरमें घुसा (इससे यह सूचित किया है, कि-अग्नि और पुत्रोंके
 साथ घरमें न घुसना चाहिये इसके उपरान्त अग्निस्थानमें जाने
 पर उसने) त्रेताग्निको तहाँ नहीं देखा, किन्तु एक अश्वत्थ
 (पीपल) को तहाँ खड़े हुए देखा ॥ ४३ ॥ तब वह राजा
 शमीजात (अग्निको छिपाने वाले) अश्वत्थको देख विस्मित
 होगया और उसने गन्धर्वोंसे अग्निनाशका वृत्तान्त कहा ॥ ४४ ॥

मयित्वाऽग्निं त्रिधा कृत्वा अयजत् स नराधिपः ॥ ४५ ॥ इष्ट्वा
यज्ञैर्वहुविधैर्गतस्तेषां सलोकताम् ॥ ४६ ॥ गन्धर्वेभ्यो वरं लब्ध्वा
त्रेताग्निं समकारयत् । एकोग्निः पूर्वमेवासीदैलस्येतामकारयत् ४७
एवंप्रभावो राजाऽऽसीदैलस्तु नरसत्तम । देशे पुण्यतमे चैव
महर्षिभिरभिष्टुते ॥ ४८ ॥ राज्यं स कारयामासं प्रयागे पृथिवी-
पतिः । उत्तरे जान्हवीतीरे प्रतिष्ठाने महायशाः ॥ ४९ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

ऐलोत्पत्तिर्नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

वैशम्पायन उवाच । ऐलपुत्रा बभूवुस्ते सर्वे देवसुतोपमाः ।
दिवि जाता महात्मान आयुर्भीमानमावसुः ॥ १ ॥ विश्वायुश्चैव
धर्मात्मा श्रुतायुश्च तथाऽारः दृढायुश्च वनायुश्च शतायुश्चोर्वशी-
सुताः । अमावसोश्च दायदो भीमो राजाऽथ नग्नजित् २ श्रीमान्
और उनसे सुनकर उसने अरणियोंका विधान किया, उसने
अश्वत्थकी अरणी बना कर अरणीको मथ कर अग्निको उत्पन्न
किया और उस अग्निको मथ कर उसके तीन विभाग किये,
उस अग्निसे उमने यजन किया था ॥ ४५ ॥ ३६ उस अग्निसे
अनेक प्रकारके यज्ञकरके गन्धर्वोंकी सलोकताको प्राप्त होगया ४६
राजा पुरूरवाने गन्धर्वोंसे वर पाकर त्रेताग्निको रचा था, पहिले
अग्नि एक ही थी, ऐलने उसको त्रेता बनाया था ॥ ४७ ॥
हे नरश्रेष्ठ! राजा पुरूरवा ऐसा प्रतापी था; उस महायशस्वी पृथ्वी-
पतिने महर्षियोंसे प्रशंसित गङ्गातटके उत्तर तट पर वसे हुए
पवित्र प्रयागदेशमें राज्य किया था ॥ ४८-४९ ॥ छव्वीसवाँ
अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥

वैशम्पायनजीने कहा कि-ऐलके स्वर्गमें उर्वशीसे उत्पन्न
हुए महात्मा-आयु बुद्धिमान्-अमावसु धर्मात्मा-विश्वायु श्रुतायु
दृढायु च्यवनायु और शतायु ये सब पुत्र देवपुत्रोंकी समान थे,

भीमस्य दाय'दो राजाऽऽसीत् कांचनप्रभः । विद्वांस्तु कांचनस्यापि
सुहोत्रोऽभून्महावलिः ॥ ३ ॥ सौहोत्रिरभवज्जन्हुः केशिन्या गर्भ
संभवः । आजहे यो महत्सत्त्वं सर्वमेवमहामखम् ॥ ४ ॥ पति-
लोभेन यं गंगा पतित्वेऽभिससार ह । नेच्छतः प्लावयामास तस्य
गंगा च तत्सदः ॥ ५ ॥ स तथा प्लावितं हृष्टा यज्ञचाट समं-
ततः । सौहोत्रिरब्रवीद्गङ्गां क्रुद्धो भरतसत्तम ॥ ६ ॥ एष ते विफल
यत्नं पिवन्नभः करोम्यहम् । अस्य गंगेऽवलेपस्य सद्यः फल-
मवाप्नुहि ॥ ७ ॥ राजर्षिणा ततः पीतां गंगां हृष्टा महर्षयः ।
उपनिष्युर्महाभागां दुहितृत्वेन जान्हवीम् ॥ ८ ॥ युवनाश्वस्य
पुत्रीं तु कावेरी जन्हुरावहत् । युवनाश्वस्य शापेन गगार्धेन विनि-
श्चिमावसुक्रे राजा भीम और नग्नाजत् नामक पुत्र हुए थे ?—२
भीमका पुत्र श्रीमान् राजा काञ्चनप्रभ हुआ, काञ्चनके भी
विद्वान् और महावली सुहोत्र नामक पुत्र हुआ ॥ ३ ॥ सुहोत्रके
केशिनीके गर्भसे जन्हु नामक पुत्र हुआ उसने जिसमें बड़ा भारी
सदावर्त लगता है ऐसे सर्वमेव नामक महामखको किया था ४
गङ्गा उसको पति बनानेके लोभसे उसके पास आई थी, पणन्तु
उस राजाके इच्छा न करने पर गङ्गाने उसकी सभाको जलसे
भर दिया था ॥ ५ ॥ हे भरतसत्तम ! सुहोत्रपुत्र जन्हुने अपने
यज्ञचाटको गङ्गाजीके द्वारा डबते हुए देख कर क्रोधमें भर कर
गङ्गासे रुद्धा, कि—॥ ६ ॥ हे गङ्गे ! मैं तरे इस जलको पीकर
तरे यत्नको व्यर्थ किये देता हूँ, हे गङ्गे ! तू इस अपनी करतूत
के फलको शीघ्र ही देख ॥ ७ ॥ राजर्षिने गङ्गाजीको पीलिया
यह देख कर महर्षियोंने महाभागा गङ्गाजीको उसकी पुत्री मनवा
कर उसका जान्हवी (नाम रख दिया) ॥ ८ ॥ (तो क्या
जन्हुकी भार्या बनना चाहने वाली गङ्गाजीका सङ्कल्प जन्हुकी
पुत्री बनने पर व्यर्थ होगया, इसका उत्तर देते हैं कि—)जन्हुने

र्ममे । कावेरीं सरितां श्रेष्ठां जन्धोर्भार्यामनिदिताम् ॥६॥ जन्हुस्तु
 दयितं पुत्रं सुनहं नाम धार्मिकम् । कावेर्यां जनयामास अजक-
 स्तस्य चात्मजः ॥ १० ॥ अजकस्य तु दायादो बलाकारवो मही-
 पतिः । वभूव मृगयाशीलः कुशस्तस्यात्मजोऽभवत् ॥११॥ कुश-
 पुत्रा वभूवुर्हि चत्वारो देववर्चसः । कुशिकः कुशनाभश्च कुशांबो
 मूर्तिमांस्तथा ॥ १२ ॥ पल्हवैः सह संवृद्धो राजा वनचरैस्तदा ।
 कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमप्रम् । लभेयमिति तं शक्रस्त्रासा-
 दभ्येत्य जज्ञिवान् ॥ १३ ॥ पूर्णं वर्षसहस्रं वा तं तु शक्रो ह्य-
 पश्यत । अत्युग्रतपसं दृष्ट्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः ॥ १४ ॥ समर्थः
 पुत्रजनने स्वमेवांशमवासयत् । पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्द्रः

युवनाश्वकी पुत्री कावेरीको विवाहा था, युवनाश्वसे शाप पाने
 पर गङ्गाजीने जन्हुकी भार्या अनिन्दित नदियोंमें श्रेष्ठ कावेरीको
 अपने आधे भागसे रचा था (किसी कारणसे युवनाश्वने गङ्गाजी
 को मानुषी होनेका शाप देदिया था, उसने भी उसकी पुत्री वन
 कर अपने संकल्पको सत्य कर लिया था) ॥ ६ ॥ जन्हुने
 कावेरीमें सुनह नामक धार्मिक पुत्रको उत्पन्न किया, उसका
 पुत्र अजक हुआ ॥ १० ॥ अजकका महीपति बलाकारव
 नामक पुत्र हुआ वह शिकार बहुत खेलता था, उसका पुत्र
 कुश हुआ ॥ ११ ॥ कुशके देवताकी समान कान्तिवाले
 कुशिक कुशनाभ कुशाम्ब और मूर्तिमान् नामक चार पुत्र हुए १२
 राजा कुशिक वनचारी पल्हवोंसे बढ़ गया था, कुशिकने इन्द्रकी
 समान प्रभाववाले पुत्रको पानेकी इच्छासे तप किया था, तब इन्द्र
 (कहीं मेरी समान कोई और न होजाय ऐमे) त्राससे स्वयंही
 उसने यहाँ पुत्र वन कर उत्पन्न हुआ था ॥ १३ ॥ सहस्र वर्ष
 पूर्ण होने पर इन्द्रने राजाको देखा, सहस्राक्ष पुरन्दरने राजा
 को अति उग्र तप कर पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ देख कर उस

सुरोत्तमः ॥१५॥ स गाधिरभवद्राजा भगवान् कौशिकः स्वयम् ।
 पुरुकुत्स्यभवद्भार्या गाधिस्तस्यामजायत ॥ १६ ॥ गाधेः कन्या
 महाभाग नाम्ना सत्यवती शुभा । तां गाधिर्भृगुपुत्राय ऋची-
 काय ददां प्रभुः ॥ १७ ॥ तस्याः प्रीतोऽभवद्भर्ता भार्गवो भृगु-
 नन्दनः । पुत्रार्थं कारयासास चरुं गाधेस्तथैव च ॥ १८ ॥ उवा-
 चाहय तां भर्ता ऋचीको भार्गवस्ततः । उपयोज्यश्चरुरयं त्वया
 मात्रा त्वयं तव ॥ १९ ॥ तस्यां जनिष्यते पुत्रो दीप्तिमान् क्षत्रि-
 यर्षभः । अजेयः क्षत्रियैर्लोके क्षत्रियर्षभमूदनः ॥ २० ॥ तवापि
 पुत्रं कल्प्याणि धृतिमन्तं तपोनिधिम् । शमात्मकं द्विजश्रेष्ठं चरु-
 रेप विधास्यति ॥ २१ ॥ एवमुक्त्वा तु तां भार्यामृचीको भृगु-

(के वीर्य) में अपने अंशको स्थापित कर दिया, इस प्रकार
 देवेन्द्र सुरोत्तम उसके पुत्र बने थे ॥ १४-१५ ॥ स्वयं भगवान्
 इन्द्र कौशिकपुत्र गाधि वन कर उत्पन्न हुए थे, उनकी स्त्री पुरु-
 कुत्सकी पुत्री थी, उसमें गाधि उत्पन्न हुए थे ॥ १६ ॥ गाधि
 के सत्यवती नाम वाली महाभाग्यवती पुत्री उत्पन्न हुई थी
 प्रभु गाधिने उसको भृगुपुत्र ऋचीकको देदिया ॥ १७ ॥ उसके
 ऊपर उसके भर्ता भृगुवंशी भृगुनन्दनने प्रसन्न होकर गाधिके
 लिये और उसके लिये पुत्रके निमित्त चरु बनाया ॥ १८ ॥
 फिर भृगुवंशी ऋचीकने उस सत्यवतीके गुलाकर कहा, कि-
 न्तु इस चरुका उपयोग करना और इस (दूतरे) चरुको तेरी
 माताको उपयोगमें लाना चाहिये ॥ १९ ॥ उसके जो पुत्र होगा
 वह क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ होगा दीप्तिमान् होगा लोकमें क्षत्रियोंसे अजेय
 होगा और बड़े २ क्षत्रियोंको दवाने वाला होगा ॥ २० ॥ और
 हे कन्याणि ! यह चरु तेरे भी धृतिमन् तपोनिधि शमस्वरूप
 द्विज पुत्रको उत्पन्न करेगा ॥ २१ ॥ अपनी भार्यासे इस प्रकार
 कह कर तपस्यासे सदा प्रेम करने वाले भृगुनन्दन ऋचीक

नन्दनः । तपस्यभिरितो नित्यमरणं प्रविशेश ह ॥२२॥ गाधिः
 सदारस्तु तदा ऋचीकावासनभ्यगात् । तीर्थयात्राप्रसंगेन सुतां
 द्रष्टुं जनेश्वरः ॥ २३ ॥ चरुद्वयं गृहीत्वा तद्वेषेः सत्यवती तदा ।
 चरुमादाय यत्नेन सा तु मात्रे न्यवेदयत् ॥ २४ ॥ माता व्यत्यस्य
 दैवेन दुहित्रे स्वं चरुं ददा । तस्याश्चरुमथाज्ञानादात्मसंस्थं
 चकार ह । २५ ॥ अथ सत्यवती गर्भं क्षत्रियायान्तकरं तदा । धारया-
 मास दीप्तेन वपुषा घोरदर्शनम् ॥ २६ ॥ तामृचीकस्ततो दृष्ट्वा
 योगेनाभ्यनुसृत्य च । तामब्रवीद् द्विजश्रेष्ठः स्वां भार्यां वरवर्णि-
 नीम् ॥ २७ ॥ मात्राऽसि वंचिता भद्रे चरुव्यत्यासहेतुना ।
 जनिष्यति हि पुत्रस्ते क्रूरकर्माऽतिदारुणः ॥ २८ ॥ भ्राता जनि-
 ष्यते चापि ब्रह्मभूतस्तपोवनः । विश्वं हि ब्रह्म तपसा मया
 तस्मिन् समर्पितम् ॥ २९ ॥ एवमुक्त्वा महाभागा भर्त्रा सत्यवती

वनको चले गत् ॥२२॥ उसी समय राजा गाधि अपनी स्त्रीके
 साथ तीर्थयात्रा करते २ अपनी पुत्रीको देखनेके लिये ऋचीक
 ऋषिके आश्रम पर पहुँचे ॥ २३ ॥ तब सत्यवतीने दोनों चरु
 लाकर यत्नपूर्वक अपनी माताके सामने धर दिये ॥ २४ ॥
 तब दैववश माताने चरु बदल कर पुत्रीको अपना चरु दे दिया
 और उसने अज्ञान (अर्थात् मेरा पुत्र ऋषिकी समान होजावे)
 से पुत्रीके चरुका भक्षण किया २५ इसके उपरान्त सत्यवतीने
 क्षत्रियोंको नष्ट करने वाले गर्भको धारण कर लिया, तब उसका
 शरीर कान्तिके कारण घोर दीखने लगा २६ उसको देख कर
 ब्राह्मणश्रेष्ठ ऋचीक ध्यान धर सब बातोंको जान कर अपनी
 वरवर्णिनी स्त्रीसे कहने लगे कि—२७ हे भद्रे ! माताने तुझे
 ठग लिया है, चरुमें लूटकेर होनेसे तेरा पुत्र अति दारुण क्रूरकर्म
 करनेवाला होगा २८ और तेरा भाई तपको धन माननेवाला और
 ब्रह्मस्वरूप होगा मैंने तपके द्वारा उसमें सारा वेद भर दिया है २९

तदा । प्रसादयामास पतिं पुत्रो मे नेदृशो भवेत् । ब्रह्मणा-
 पसदस्तत्र इत्युक्तो मुनिरब्रवत् ॥ ३० ॥ नैप संकल्पितः कामो
 मया भद्रे तथास्त्विति । उग्रकर्मा भवेत् पुत्रः पितृर्मातुरच कार-
 णात् । पुनः सत्यवती वाक्यमेवमुक्ताऽब्रवीदिदम् ॥ ३१ ॥ इच्छं-
 न्त्वोक्तानपि मुने सृजेथाः किं पुनः सुतम् । शमात्मकमृजुं त्वं मे
 पुत्रं दातुमिहार्हसि ॥ ३२ ॥ काममेवं विधः पौत्रो मम स्यात्तत्र
 च मभो । यद्यन्यथा न शक्यं वै कर्तुमेतद् द्विजोत्तम ॥ ३३ ॥
 ततः प्रसादमकरोत् स तस्यास्तपसो बलात् । भद्रे नास्ति विशेषो
 मे पौत्रे च वरवर्णिनि । त्वया यथोक्तं वचनं तथा भद्रे भवि-
 ष्यति ॥ ३४ ॥ ततः सत्यवती पुत्रं जनयामास भार्गवम् । तप-

भर्ताके इस प्रकार कहने पर महाभाग सत्यवती स्वामीको प्रसन्न
 करके कहने लगी, "ऐसा ब्राह्मणोंको रुलांक लगाने वाला पुत्र
 मेरे न हो" तब मुनिने उससे कहा, कि-॥३०॥ हे भद्रे ! पिता
 और माताके कारण पुत्र उग्रकर्मा होजाता है मैंने तो (उग्रकर्मा)
 पुत्रकी कामना नहीं की थी (किन्तु तेरे प्रमादवश ही चरुका
 फेर होगया है) अत एव ऐसा ही पुत्र होगा, इस प्रकार कहने
 पर सत्यवतीने फिर कहा, कि-॥ ३१ ॥ हे मुने ! आप चाहें
 तो तीनों लोकोंको रच सकते है, फिर पुत्रकी तो बात ही क्या
 है ? आपको मुझे शमपरायण सरल पुत्र देना चाहिये ॥३२॥
 और हे द्विजोत्तम ! यदि इस बातको लौटा न जासके तो भले
 ही आपका और मेरा पौत्र ऐसा होजाय ॥ ३३ ॥ तब उन्होंने
 तपोबलसे उसके ऊपर अनुग्रह किया, और कहा, कि हे भद्रे !
 हे वरवर्णिनि ! मैं (पुत्रमें) और पौत्रमें कुछ भेद नहीं समझता
 [क्योंकि-आत्मा वै पुत्र नामासि] अतः तूने जो बात कही है,
 वह ठीकी ही होगी ॥ ३४ ॥ तब सत्यवतीने तपमें लीन रहने
 वाले चतुर और शमपरायण जमदग्नि नामक भृगुवंशी पुत्रको

स्यभिरतं दान्तं जमदग्निं शमात्मकम् ॥ ३५ ॥ भृगोश्चरुवि
 पर्यासं रौद्रबौष्णवयोः पुरा । यजनाद्वैष्णवेश्यांशे जमदग्निरजा-
 यत ॥ ३६ ॥ स हि सत्यवती पुण्या सत्यधर्मपरायणा । कौशि-
 कीति समाख्याता प्रवृत्तैर्ष महानदी ३७ इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रेणु-
 नाम नराधिपः । तस्य कन्या महाभागा कामली नाम रेणुका ३८
 रेणुकायां तु कामल्यां तपोविद्यासमन्वितः। आर्चीको जनयामास
 जामदग्न्यं सुदारुणम् ॥ ३९ ॥ सर्वविद्यानुगं श्रेष्ठं धनुर्वेदस्य पार-
 गम् । रामं क्षत्रियहन्तारं प्रदोत्समिव पावकम् ॥ ४० ॥ और्वस्यै-
 वमृचीकस्य सत्यवत्यां महावशाः । जमदग्निस्तपोवीर्याञ्जने ब्रह्म-
 विदाम्बरः ॥ ४१ ॥ मध्यमश्च शुनःशोफः शुनःपुच्छः कनिष्ठकः ।
 विश्वामित्रं तु दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः ॥ ४२ ॥ जनया-
 मास पुत्रं तु तपोविद्याशमात्मकम् । प्राप्य ब्रह्मर्षिसमतां योऽयं

उत्पन्न किया ॥ ३५ ॥ रुद्र और विष्णुके चरुके विपर्यास होने
 पर भी भृगुके यजन करने पर बौष्णवांश भी शमात्मक जमदग्नि-
 रूपमें उत्पन्न हुआ ॥ ३६ ॥ वह पुण्यमयी सत्यधर्ममें परायण
 रहने वाली सत्यवती कौशिकी नामकी नदी प्रसिद्ध होकर वह
 रही है ॥ ३७ ॥ इक्ष्वाकुवंशमें रेणु नामक राजा हुआ, उसके
 कामली रेणुका नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई थी ॥ ३८ ॥
 तप और विद्यासंपन्न ऋचीकपुत्र जमदग्निने उस कामली रेणुका
 में अतिदारुण जामदग्न्य परशुरामको उत्पन्न किया था ॥ ३९ ॥
 वे श्रेष्ठ सब विद्याओंको जानने वाले धनुर्वेदके पारगामी क्षत्रियों
 के नाशक और मज्जलित अग्निही समान थे ४० और्ववंशी
 ऋचीकके सत्यवतीसे तपोव्रतके कारण ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ
 जमदग्निनामक पुत्र हुए थे ४१ और विचले शुनःशोफ और
 कनिष्ठ शुनःपुच्छ हुए थे और कुशिकनन्दन गाधिने तप
 विद्या और शमसम्पन्न विश्वामित्र नामक पुत्र उत्पन्न किया

सप्तर्षितां गतः ॥ ४३ ॥ विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा नाम्ना विश्व-
 रथः स्मृतः । जज्ञे भृगुप्रसादेन कौशिकादंशवर्धनः ॥ ४४ ॥
 विश्वामित्रस्य तु सुता देवरातादयः स्मृताः । प्रख्यातास्त्रिषु
 लोकेषु तेषां नामानि मे शृणु ॥ ४५ ॥ देवध्रवाः कतिश्चैव
 यस्मात् कात्यायनाः स्मृताः ॥ शालावत्या हिरण्यातो रेणोर्जज्ञेऽथ
 रेणुमान् ॥ ४६ ॥ सांक्रुतिर्गालवश्चैव मुद्गलश्चैव विश्रुताः ४६
 मधुच्छन्दो जयश्चैव देवलश्च तथाष्टरुः ॥ ४७ ॥ कच्छपो हारि-
 तश्चैव विश्वामित्रस्य वै सुताः । तेषां ख्यातानि गोत्राणि कौशि-
 कानां महात्मनाम् ॥ ४८ ॥ पाणिनेर् वभ्रवश्चैव ध्यानजप्या-
 स्तथैव च । पार्थिवा देवराताश्च शालंकायनवाष्कलाः ॥ ४९ ॥
 लोहिता यामदूताश्च तथा कारीपवः स्मृताः । सौश्रुताः कौशिका
 राजंस्तथाऽन्ये सैधवायनाः ॥ ५० ॥ देवला रेणुश्चैव याज्ञ-
 ये विश्वामित्र ब्रह्मर्षियोंकी समान होकर सप्तर्षियोंमें माने जाने
 लगे थे ॥ ४२-४३ ॥ वंशवर्धन धर्मात्मा विश्वामित्र भृगुवंशीके
 प्रसादसे कौशिकसे विश्वरथ नामसे उत्पन्न हुए थे ४४ विश्वा-
 मित्रके देवरात आदि तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध पुत्र हैं उनके नामको
 तुम मुझसे सुनो ॥ ४५ ॥ शालावतीसे देवरथ हिरण्यात्त और
 कृति नामक पुत्र हुए इनके पुत्र कात्यायन कहलाते हैं और रेणु
 से रेणुमान् सांक्रुति गालव मुद्गल मधुच्छन्द जय और देवल
 नामक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुए और (हपद्वतीसे) अपृक कच्छप
 और हारीत नामक विश्वामित्रके पुत्र हुए इन महात्मा कौशिकों
 के गोत्र प्रसिद्ध हैं ॥ ४६-४८ ॥ हेराजन् ! विश्वामित्रके पाणिन
 वभ्रव ध्यानजप्य पार्थिव देवरात शालंकायन वाष्कल लोहित
 यामदूत कारीपव सौश्रुत और सैधवायन (गोत्र) प्रसिद्ध
 हैं ॥ ४९-५० ॥ देवल (देवपुत्र) रेणव (रेणुके पौत्र) याज्ञवल्क्य
 यजुषर्षण औदुम्बर अभिष्यात तारकायन और चुञ्चुल (ये छः)

वत्कयाघमर्षणाः। औदुम्बरा ह्यभिप्यातास्तारकायनचुञ्चुलाः ५१
 शालावत्या हिरण्यान्ताः सांकृत्या गालवास्तथा । वादरायणिन-
 श्रान्ये विश्वामित्रस्य धीमतः ॥ ५२ ॥ ऋष्यन्तरविवाहाश्च कौशिका
 बहवः स्मृताः। पौरवस्य महाराज ब्रह्मर्षेः कौशिकस्य च । संबन्धो-
 ऽप्यस्य वंशोऽस्मिन् ब्रह्मक्षत्रस्य विश्रुतः ॥ ५३ ॥ विश्वामित्रा-
 त्मजानां तु शुनःशेफोऽग्रजः स्मृतः । भार्गवः कौशिकत्वं हि प्राप्तः
 स मुनिसत्तमः ॥ ५४ ॥ विश्वामित्रस्य पुत्रस्तु शुनःशेफोऽभवत्
 किल । हरिदश्वस्य यज्ञे तु पशुत्वे विनियोजितः ॥ ५५ ॥ देवै-
 र्दत्तः शुनःशेफो विश्वामित्राय नौ पुनः । देवैर्दत्तः स नौ यस्मा-
 देवरातस्ततोऽभवत् ॥ ५६ ॥ देवरातादयः सप्त विश्वामित्रस्य नौ
 सुताः । ह्यपद्वतीसुतश्चापि विश्वामित्रात्तथाष्टकः ॥ ५७ ॥ अष्ट-

शालावतीके पुत्र शालावत्य और हिरण्यान्त (रेणुके पौत्र)
 सांकृत्य और गालव (रेणुके पौत्र) और वादरायणिन ये विश्वा-
 मित्रके (गोत्र) हैं ॥ ५१-५२ ॥ इन सांकृत्य आदिका ऋषि
 और प्रवर भेदसे (इनकेसे नाम वाले) ऋषियोंमें भी विवाह
 हुआ है, कौशिकगोत्री बहूतसे प्रसिद्ध है, इस वशमें राजा पौरव
 का और ब्रह्मर्षि बसिष्ठके साथ कौशिकका सम्बन्ध भी प्रसिद्ध
 है ॥ ५३ ॥ विश्वामित्रके पुत्रोंमें शुनःशेफ सबसे बड़े पुत्र कह-
 लाते हैं, वह मुनिश्रेष्ठ भार्गव होने पर भी कौशिक होगए थे
 (यह कल्पान्तर ही बात है) ॥ ५४ ॥ विश्वामित्रके शुनःशेफ
 नाम वाले पुत्रको हरिश्चन्द्रके यज्ञमें यशु बनाया गया था ५५
 फिर देवताओंने शुनःशेफको फिर विश्वामित्रके अर्पण कर दिया
 था, देवताओंका दिया हुआ था, इस कारण वह देवरात (देवै रातः-
 दत्तः) कहलाने लगा था ॥ ५६ ॥ देवरात आदि विश्वामित्रके
 सात पुत्र हैं और विश्वामित्रसे ह्यपद्वतीमें जो अष्टरु नामक पुत्र
 हुआ था, उस अष्टरुका पुत्र लौहि हुआ इसप्रकार मैंने जन्हु

कस्य सुतो लौहिः प्रोक्तो जन्हुगणो मया । अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि
वंशगायोर्महात्मनः ॥ ५८ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि
अमावसुवंशकीर्तनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥

वैशंपायन उवाच । आयोः पुत्रास्तथा पञ्च सर्वे वीरा महा-
रथाः । स्वर्भानुतनयार्या च प्रभार्या जङ्घिरे नृप ॥ १ ॥ नहुपः
प्रथमं जङ्घे वृद्धशर्मा ततः परम् । रंभो रजिरनेनाथ त्रिपु
लोकेषु विश्रुताः ॥ २ ॥ रजिः पुत्रशतानीह जनयामास पञ्च
वै । राजेषमिति विख्यातं क्षत्रमिद्रभयावहम् ॥ ३ ॥ यत्र देवा-
सुरे युद्धे समुत्पन्ने सुदारुण्ये । देशश्चैवासुराश्चैव पितामहमथा-
ऽब्रुवन् ॥ ४ ॥ आवयोर्भगवन् युद्धे को विजेता भविष्यति । ब्रूहि
नः सर्वभूतेश श्रोतुमिच्छामि ते वचः ॥ ५ ॥ ब्रह्मोवाच । येषा-
मर्थाय संग्रामे रजिरात्तायुधः प्रभुः । योऽस्मते ते जयिष्यन्ति

(का वंश) गण कह दिया, अब मैं महात्मा आयुके वंशको कहता
हूँ ॥ ५७-५८ ॥ सत्ताईसवों अध्याय समाप्त ॥ २७ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-हे राजन् ! स्वर्भानुकी पुत्री
प्रभामें आयुके पाँच महावीर पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥ १ ॥ नहुप
प्रथम उत्पन्न हुआ तदनन्तर वृद्धशर्मा उत्पन्न हुआ, तदनन्तर
रम्भ रजि और अनेना उत्पन्न हुए, ये त्रिलोकीमें प्रसिद्ध हैं २
रजिने पाँच सहस्र पुत्रोंको उत्पन्न किया था, वह इन्द्रको भय
उत्पन्न करने वाला क्षत्रियोंका समूह राजेय नामसे प्रसिद्ध है ३
एक समय दारुण देवासुर संग्रामके उपस्थित होने पर देवता
और असुरोंने पितामहसे कहा कि-॥ ४ ॥ हे भगवन् ! हम
दोनोंके युद्धमें कौन जीतगा, हे भूतेश ! आप हमसे सत्य बात
कहिये हम आपके वचनको सुनना चाहते हैं ॥ ५ ॥ ब्रह्माजीने
कहा, कि-“ प्रभु अजि शस्त्र पकड़ कर जिसका पक्ष ग्रहण

त्रींल्लोकान्नात्र संशयः ॥ ६ ॥ यतो रजिर्धृतिस्तत्र श्रीश्च तत्र
 यतो धृतिः । यतो धृतिश्च श्रीश्चैव धर्मस्तत्र जयस्तथा ॥ ७ ॥ ते
 देवदानवाः प्रीणा देवेनोक्ता रजेर्जये । अभ्ययुर्जयमिच्छन्तो
 वृषवाणा भरतर्षभम् ॥ ८ ॥ स हि, स्वर्भानुदौहित्रः प्रभार्या सम-
 पद्यत । रागा परमतेजस्वी सोमवंशपवर्धनः ॥ ९ ॥ ते हृष्टमनसः
 सर्वे रजिं दैतेयदेवताः । ऊचुरस्मञ्जयाय त्वं गृहाण वरः कर्तु-
 क्रम् ॥ १० ॥ अथोवाच रजिस्तत्र तयोर्वैदेवदैत्ययोः । स्वार्थज्ञः
 स्वार्थमुद्दिश्य यशः स्वं च प्रकाशयन् ॥ ११ ॥ रजिरुवाच । यदि
 दैत्यगणान् सर्वान् जित्वा शक्रपुरोगमाः । इन्द्रो भवामि धर्मेण
 ततो योत्स्यामि संयुगे ॥ १२ ॥ देवाः प्रथमतो भूय मत्पूचुर्हृष्ट-

करेगा वही तीनों लोकोंको जीत लेगा ॥ ६ ॥ जहाँ रजि होगा
 तहाँ धृति होगी और जहाँ धृति होगी तहाँ लक्ष्मी होगी और
 जहाँ पर श्री (लक्ष्मी) और धृति होगी उस पक्षकी विजय
 अवश्य होगी ” ॥ ७ ॥ ब्रह्माजीके कहने पर कि-रजि
 जिसका पक्ष लेगा उस पक्षकी जय होगी, यह सुन कर देवता
 और दानव प्रसन्न होकर अपनी २ विजय चाहते हुए भरतर्षभ
 रजिसे अपने २ पक्षको ग्रहण करनेको कहनेके लिये गए ॥ ८ ॥
 वह सोमवंशको बढ़ाने वाला परमतेजस्वी राजा राहुका धेवता
 था और प्रभासे उत्पन्न हुआ था ॥ ९ ॥ वे दैत्य और दानव
 मनमें प्रसन्न होकर रजिसे कहने लगे कि-आप हमारी विजय
 के लिये श्रेष्ठ धनुषको ग्रहण करिये ॥ १० ॥ स्वार्थको जानने
 वाला राजा रजि अपने स्वार्थकी ओर लक्ष्य कर अपने यशको
 प्रकाशित करता हुआ देवता और दैत्योंसे कहने लगा ॥ ११ ॥
 रजिने कहा, कि- हे शक्र आदि देवताओं ! यदि मैं सब दैत्यों
 को जीत कर धर्मपूर्वक इन्द्र वन सहूँ तो युद्धमें युद्ध कहेगा १२
 तब तो देवता चित्तमें पहिलेसे भी अधिक हर्षित होकर कहने

मानसाः । एवं यथेष्टं नृपते कामः संपद्यतां तव ॥ १३ ॥ श्रुत्वा
 सुरगणानां तु वाक्यं राजा रजिस्तदा । पमच्छामुरमुख्यास्तु
 यथा देवानृच्छत ॥ १४ ॥ दानवा दर्पपूर्णास्तु स्वार्थमेवानु-
 गम्य ह । प्रन्यूचुस्तं नृपवरं साभिमानमिदं वचः ॥ १५ ॥ अस्माक-
 मिन्द्रः प्रहादो वस्यार्ये विजयामहे । अस्मिस्तु समये राजंस्तिष्ठेया
 राजसत्तम ॥ १६ ॥ स तथेति ब्रुवन्नेव देवैरप्पभिचोदितः । भवि-
 ष्यसींद्रो जित्वा च देवैरुक्तस्तु पार्थिवः । जघान दानवान् सर्वान्
 ये वध्या वज्रपाणिनः ॥ १७ ॥ स विपनष्टां देवानां परमथ्रीः
 त्रियं वशी । निहत्य दानवान् सर्वानाजहार रजिः प्रभुः ॥ १८ ॥
 ततो रजि महावीर्यं देवैः सह शतक्रतुः । रजेः पुनोऽहमित्युक्त्वा
 पुनरेवाब्रवीद्वचः ॥ १९ ॥ इन्द्रोऽसि तात देवानां सर्वेषां नान

लगे, कि-हे राजन् ! आपकी यह इच्छा यथेष्टरूपसे पूर्ण होगी १३
 देवताओंकी इस बातको सुन कर राजा रजिने जिस प्रकार
 देवताओंसे कहा था, उसी प्रकार मुख्य २ असुरोंसे बूझा ॥ १४ ॥
 उस समय दानवोंने अपने स्वार्थका अनुसरण कर अभिमान-
 पूर्वक उस राजासे यह बात कही, कि-॥ १५ ॥ हमारा इन्द्र
 तो प्रहाद होगा, हम उसके लिए ही लड़ रहे हैं, हे राजसत्तम !
 तुम इन (देवताओंकी) प्रतिज्ञा पर ही दृढ़ रहो अर्थात् तुम
 देवताओंके ही इन्द्र बनो, हम तुम्हारी अपेक्षा नहीं हैं ॥ १६ ॥
 तब राजाके दैत्योंसे तथास्तु कहने पर भी देवताओंने उससे फिर
 कहा, कि-जीतनेके अनन्तर आप ही इन्द्र बनेंगे, देवताओंके इस
 प्रकार कहने पर राजाने इन्द्रके मारने योग्य सब राक्षसोंको
 मार डाला ॥ १७ ॥ इन्द्रियोंको वशमें रखने वाले रजिने देव-
 ताओंकी खोईहुई परमलक्ष्मी सब दानवोंको मार कर फिर
 लौटा ली ॥ १८ ॥ उस समय देवराज इन्द्रने देवताओंको साथ
 में लेकर महावीर्य रजिसे कहा कि मैं रजिका पुन हूँ, फिर उसने

संशयः । यस्याहमिन्द्रः पुत्रस्ते ख्यातिं यास्यामि कर्मभिः ॥२०॥
 स तु शक्रवचः श्रुत्वा वंचितस्तेन मायया । तथेत्येवाब्रवीद्राजा
 प्रीयमाणः शतक्र॑म् ॥ २१ ॥ तस्मिंस्तु देवसदृशे दिवं प्राप्ते
 महीपतौ । दायाद्यमिन्द्रादाजहृशराचारात्तनया रजेः ॥ २२ ॥
 पंच पुत्रशतान्यस्य तद्वै स्थानं शतक्रतोः । समाक्रमन्त बहुधा
 स्वर्गलोकं त्रिविष्टपम् ॥ २३ ॥ ततो बहुतिये काले समतीते महा-
 बलः । हृतराज्योऽब्रवीच्छक्रो हृतभागो बृहस्पतिम् ॥२४॥ इन्द्र
 उवाच । बदरीफलमात्रं वा पुरोडाशं विभन्स्व मे । ब्रह्मर्षे येन
 निष्ठेय तेजसाऽऽप्यायितः सदा ॥ २५ ॥ ब्रह्मन् कृशोऽहं विमना
 हृतराज्यो हृताशनः । इतोजा दुर्वलो मूढो रजिपुत्रैः कृतः प्रभो२६
 बृहस्पतिरुवाच । यद्येवं चोदितः शक्र त्वया स्यां पूर्वमेव हि ।

कहा, कि-॥ १६ ॥ हे तात ! आप हम सबोंके इन्द्र हैं, इसमें
 सन्देह ही क्या है ? ॥ २० ॥ इन्द्रकी बात सुन कर राजा
 उसकी मायामें फँस गया और उसने प्रसन्न होकर राजासे
 तथास्तु कह दिया ॥ २१ ॥ उस देवसमान राजाके स्वर्गमें पहुँ
 चने पर आचारके अनुसार उसके सब पुत्र उसके दायाद्य
 (इन्द्रपद) को भोगने लगे (क्योंकि-पिताके धनको सब ही
 पुत्रोंको समानभावसे भोगना चाहिये) । २२ ॥ उसके पाँच सौ
 पुत्र थे वे सब इन्द्रके स्थान स्वर्गलोकको भोगने लगे ॥ २३ ॥
 तब बहुतसा समय बीतजानेपर जिसका राज्य छिन गया था और
 जिसका भाग छीना जा रहा था ऐसा इन्द्र बृहस्पतिसे कहने लगा २४
 इन्द्रने कहा, कि-हे ब्रह्मर्षि ! आप मेरा बेरकी समान ही भाग
 नियत कर दीजिये, हे ब्रह्मर्षे ! जिससे मैं उससे आप्यायित
 होकर ठहरा रह सकूँ ॥२५॥ हे ब्रह्मन् ! मैं भोजन और राज्य
 के न मिलनेसे दुबला हो रहा हूँ, हे प्रभो ! रजिके पुत्रोंने मुझे
 दुबला और निस्तेज तथा मूढ़ बना दिया है २ बृहस्पतिने कहा,

नाभविष्यत्स्वल्पिवार्थमकर्तव्यं ममानघ ॥ २७ ॥ प्रयतिष्यामि देवैर्द्र
 त्वत्पियार्थं न संशयः । यथाभागं च राज्यं च न चिरात् प्रति
 लप्स्यसे ॥ २८ ॥ तथा तात करिष्यामि मा भूते विक्रमं मनः ।
 ततः कर्म चकारास्य तेजसो वर्धनं तदा ॥ २९ ॥ तेषां च बुद्धि-
 संगोहमकरोद् द्विनसत्तमः । नास्ति वादार्थशास्त्रं हि धर्मविद्वेषणं
 परम् ॥ ३० ॥ परमं तर्कशास्त्रायामसतां तन्मनोगतम् । न हि
 धर्मप्रधानानां रोचते तत्कर्थातरे ॥ ३१ ॥ ते तद् बृहस्पतिकृतं
 शास्त्रं श्रुत्वाऽल्पचेतसः । पूर्वोक्तधर्मशास्त्राणामभवन् द्वेषिणः
 सदा ॥ ३२ ॥ प्रवक्तुर्न्यापरहितं तन्मतं बहु मेनिरे । तेनाधर्मेण
 ते पापाः सर्वा एव क्षयं गताः ॥ ३३ ॥ त्रैलोक्यराज्यं शकस्तु
 पाप्य दुष्पापमेव च । बृहस्पतिमसादद्धि परां निर्द्वेषिभ्ययात् ३४
 कि—हे शक्र ! यदि तू पहिलेसे मुझसे यह बात कहता, तो
 ऐसा कोई कार्य नहीं था, जो मैं तेरे लिये नहीं कर सकता था २७
 हे देवेन्द्र ! मैं तेरे लिये अवश्य ही ऐसा प्रयत्न करूँगा,
 तब तू शीघ्र ही अपना राज्य और भाग पावेगा ॥ २८ ॥
 हे तात ! तू अपने मनको मैला न कर, हे तात ! मैं ऐसा ही
 करूँगा तदनन्तर वह द्विमश्रेष्ठ उनकी बुद्धिको मोहमें डालने
 वाले और इन्द्रके तेजको बढ़ाने वाले कर्मको करने लगे, वाद
 मय शास्त्रकासा और कोई कर्म विद्वेष फैलाने वाला नहीं
 है ॥ ३० ॥ यह परम तर्कशास्त्र है और असज्जन इसको सर्वदा
 अपने मनमें रखने हैं और धर्मप्रधान मनुष्योंको यह अच्छा नहीं
 लगता है ॥ ३१ ॥ परन्तु वे मन्दबुद्धि बृहस्पतिजीके वनाये हुए
 इस शास्त्रको सुन कर पूर्वोक्त धर्मशास्त्रोंसे द्वेष करने लगे ३२
 वक्ताके उस न्यायशून्य मतको उन्होंने बहुत माना, उस अधर्मसे
 वे सब पापी क्षयको प्राप्त होगए ३३ इन्द्र बृहस्पतिजीके प्रसादसे
 त्रिलोकीके दुष्पाप्य राज्यको पाकर परम आनन्दित हुआ ३४

ते यदा तु सुसंमूढा रागोन्मत्ता विधर्मिणः । ब्रह्मद्विपथ संवृत्ता
 इतवीर्यपराक्रमाः ॥ ३५ ॥ ततो लेभे सुरैरवर्यमिन्द्रः स्थानं
 तथोत्तमम् । इत्वा रजिसुतान् सर्वान् कामक्रोधपरायणान् ३६
 य इदं च्यावनं स्थानात् प्रतिष्ठां च शतक्रतोः । ऋणुयाद्धारयेद्वापि
 न स दीरात्म्यमाप्नुयात् ॥ ३७ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

आयुर्वंशकीर्त्तनं नाम अष्टाविंशोऽध्यायः ॥२८॥

वैशम्पायन उवाच । रम्भोऽनपत्यस्तत्रासीद्वंशं वक्ष्याम्यने-
 नसः । अनेनेसः सृतो राजा प्रतित्तत्रो महायशाः ॥ १ ॥ प्रति-
 त्तत्रसुतरचापि सृञ्जयो नाम विश्रुतः । सृञ्जयस्य जयः पुत्रो विज-
 यस्तस्य चात्मजः ॥ २ ॥ विजयस्य कृतिः पुत्रस्तस्य हर्यश्वतः
 सृतः । हर्यश्वतसुतो राजा सहदेवः प्रतापवान् ॥ ३ ॥ सहदेवस्य
 धर्मात्मा नदीन इति विश्रुतः । नदीनस्य जयत्सेनो जयत्सेनस्य
 वे जय रागसे उन्मत्त मूढ विधर्मी ब्रह्मद्वेषी और निर्वीर्य दोगये ३५
 तव इन्द्रने काम और क्रोधमें परायण रहने वाले रजिके पुत्रोंके
 मार कर उत्तम देवैरवर्य पाया था ॥ ३६ ॥ जो मनुष्य इन्द्रके
 इसस्थानसे भ्रष्ट होनेकी और उस पर फिर आरुढ़ होनेकी कथा
 को सुनना है वा इसके धारण करता है, उसकी कभी दुर्गति
 नहीं होती है ॥ ३७ ॥ अट्टाईसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥
 . वैशंगायन कहते हैं, कि—उनमें रंभ निःसन्तान था अतः मैं
 अनेनाके वंशको कहता हूँ, अनेनाके प्रतित्तत्र नामक महायशस्वी
 पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥ १ ॥ प्रतित्तत्रका पुत्र सृञ्जय नामसे
 प्रसिद्ध है, सृञ्जयके जय हुआ और जयके विजय नामक पुत्र
 हुआ ॥ २ ॥ विजयके कृति नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र
 हर्यश्वत हुआ उसके सहदेव नामक प्रतापी पुत्र हुआ ३ सहदेवके
 धर्मात्मा नदीन नामक पुत्र हुआ, नदीनके जयत्सेन और जयत्सेन

संकृतिः ॥४॥ संकृतेरपि धर्मात्मा क्षत्रधर्मा महायशाः । अनेनसः
समाख्याताः क्षत्रवृद्धस्य मे शृणु ॥ ५ ॥ क्षत्रवृद्धात्मजस्तत्र सुन
होत्रो महायशाः । सुनहोत्रस्य दायादास्त्रयः परमधार्मिकाः ॥६॥
काशः शलश्च द्वायेतौ तथा वृत्समदः मधुः । पुत्रो वृत्समदस्यापि
शुनको यस्य शौनकाः ॥ ७ ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वैश्याः
शूद्रास्तथैव च । शलात्मजश्चाष्टिणेणस्तनूनसनस्य काशकः ॥८॥
काशस्य काशयो राजन् पुत्रो दीर्घतपास्तथा । धन्वस्तु दीर्घतपसो
विद्वान् धन्वन्तरिस्ततः ॥ ९ ॥ तपसोते सुप्रहतो जानो वृद्धस्य
धीमतः । पुनर्धन्वन्तरिर्देवो मानुषेष्विह जज्ञिवान् ॥१०॥ जनमे-
जय उवाच । कथं धन्वन्तरिर्देवो मानुषेष्विह जज्ञिवान् । एतद्वे-

के संकृति नामक पुत्र हुआ ॥४॥ संकृतिके भी धर्मात्मा क्षत्रधर्मा
नामक महायशस्वी पुत्र हुआ, अनेनाके वंशजोंका वर्णन
कर दिया अब तुम क्षत्रवृद्धके वंशजोंको सुनो ॥ ५ ॥
क्षत्रवृद्ध अर्थात् वृद्धशर्मा उपनाम वाले राजाका सुनहोत्र नामक
महायशस्वी पुत्र हुआ सुनहोत्रके परमधार्मिक तीन पुत्र हुए ६
काश और शल ये दो और (तीसरा) मधु, वृत्समद वृत्स-
मदके शुनक नामक पुत्र हुआ उसके वंशज शौनक कहलाते
हैं ॥ ७ ॥ वृत्समदकी सन्ततिमें शुनक आदि ब्राह्मण
हुए थे और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र पुत्र भी उत्पन्न हुए ।
(सुनहोत्रके मध्यम पुत्र) शलके आष्टिणेण नामक पुत्र
हुआ उसका पुत्र काशक हुआ ॥ ८ ॥ (सुनहोत्रके प्रथम पुत्र)
काशके हे राजन् ! काशि नामक पुत्र हुए और (उनमें पहिला)
दीर्घतपा नामक पुत्र हुआ, दीर्घतपाके धन्व हुआ वह विद्वान्
फिर धन्वन्तरि कहलाने लगा था ॥ ९ ॥ वह बुद्धिमान् राजा
दीर्घतपाके वृद्ध होकर तप करने पर उत्पन्न हुआ था वह धन्व-
न्तरि देवता फिर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ था ॥ १० ॥ जनमे

ते यदा तु सुसंमूढा रागोन्मत्ता विधर्मिणः । ब्रह्मद्विपश्च संवृत्ता
 हतवीर्यपराक्रमाः ॥ ३५ ॥ ततो लेभे सुरैश्वर्यमिन्द्रः स्थानं
 तथोत्तमम् । इत्वा रजिसुतान् सर्वान् कामक्रोधपरायणान् ३६
 य इदं च्यावनं स्थानात् प्रतिष्ठां च शनक्रतोः । शृणुयाद्धारयेद्वापि
 न स दीरात्म्यमाप्नुयात् ॥ ३७ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि
 आयुर्वंशकीर्त्तनं नाम अष्टाविंशोऽध्यायः ॥२८॥

वैशम्पायन उवाच । रम्भोऽनपत्यस्तत्रासीद्वंशं वक्ष्याम्यने-
 नसः । अनेनसः सुतो राजा प्रतिज्ञत्रो महायशाः ॥ १ ॥ प्रति-
 ज्ञत्रसुतरचापि सृञ्जयो नाम विश्रुतः । सृञ्जयस्य जयः पुत्रो विज-
 यस्तस्य चात्मजः ॥ २ ॥ विजयस्य कृतिः पुत्रस्तस्य हर्यश्वतः
 सुतः । हर्यश्वतसुतो राजा सहदेवः प्रतापवान् ॥ ३ ॥ सहदेवस्य
 धर्मात्मा नदीन इति विश्रुतः । नदीनस्य जयत्सेनो जयत्सेनस्य
 वे जय रागसे उन्मत्त मूढ विधर्मी ब्रह्मद्वेषी और निर्वीर्य दोगये ३५
 तव इन्द्रने काम और क्रोधमें परायण रहने वाले रजिके पुत्रोंको
 मार कर उत्तम देवैश्वर्य पाया था ॥ ३६ ॥ जो मनुष्य इन्द्रके
 इसस्थानसे भ्रष्ट होनेकी और उस पर फिर आरूढ़ होनेकी कथा
 को सुनता है वा इसको धारण करता है, उसकी कभी दुर्गति
 नहीं होती है ॥ ३७ ॥ अष्टाईसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥
 वैशम्पायन कहते हैं, कि—उनमें रंभ निःसन्तान था अतः मैं
 अनेनाके वंशको कहता हूँ, अनेनाके प्रतिज्ञत्र नामक महायशस्वी
 पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥ १ ॥ प्रतिज्ञत्रका पुत्र सृञ्जय नामसे
 प्रसिद्ध है, सृञ्जयके जय हुआ और जयके विजय नामक पुत्र
 हुआ ॥ २ ॥ विजयके कृति नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र
 हर्यश्वत हुआ उसके सहदेव नामक प्रतापी पुत्र हुआ ३ सहदेवके
 धर्मात्मा नदीन नामक पुत्र हुआ, नदीनके जयत्सेन और जयत्सेन

संक्रुतिः ॥४॥ संक्रुतेरपि धर्मात्मा क्षत्रधर्मा महायशाः । अनेनसः
समाख्यानाः क्षत्रवृद्धस्य मे शृणु ॥ ५ ॥ क्षत्रवृद्धात्मजस्तत्र सुन-
होत्रो महायशाः । सुनहोत्रस्य दायादास्त्रयः परमधार्मिकाः ॥६॥
काशः शल्लश्च द्वाचेनौ तथा गृत्समदः मभुः । पुत्रो गृत्समदस्यापि
शुनको यस्य शौनकाः ॥ ७ ॥ धात्मणाः क्षत्रिपारश्चैव वैश्याः
शूरास्तथैव च । शल्लात्मजश्चाष्टिपेणस्तनूतस्वस्य काशकः ॥८॥
काशस्य काशपो राजन् पुत्रो दीर्घतपास्तथा । धन्वस्तु दीर्घतपसो
विद्वान् धन्वन्तरिस्ततः ॥ ९ ॥ तपसोते सुमहतो जानो वृद्धस्य
धीमतः । पुनर्धन्वन्तरिर्देवो मानुषेष्विह जज्ञिवान् ॥१०॥ जनमे-
जय उवाच । कथं धन्वन्तरिर्देवो मानुषेष्विह जज्ञिवान् । एतद्वे-

के संक्रुति नामक पुत्र हुआ ॥४॥ संक्रुतिके भी धर्मात्मा क्षत्रधर्मा
नामक महायशस्वी पुत्र हुआ, अनेनाके वंशजोंका वर्णन
कर दिया अब तुम क्षत्रवृद्धके वंशजोंको सुनो ॥ ५ ॥
क्षत्रवृद्ध अर्थात् वृद्धशर्मा उपनाम वाले राजाका सुनहोत्र नामक
महायशस्वी पुत्र हुआ सुनहोत्रके परमधार्मिक तीन पुत्र हुए ६
काश और शल्ल ये दो और (तीसरा) मभु गृत्समद गृत्स-
मदके शुनक नामक पुत्र हुआ उसके वंशज शौनक कहलाते
हैं ॥ ७ ॥ गृत्समदकी सन्ततिमें शुनक आदि ब्राह्मण
हुए थे और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र पुत्र भी उत्पन्न हुए ।
(सप्तहोत्रके मध्यम पुत्र) शल्लके आष्टिपेण नामक पुत्र
हुआ उसका पुत्र काशक हुआ ॥ ८ ॥ (शुनहोत्रके प्रथम पुत्र)
काशके हे राजन् ! काशि नामक पुत्र हुए और (उनमें पहिला)
दीर्घतपा नामक पुत्र हुआ, दीर्घतपाके धन्व हुआ वह विद्वान्
फिर धन्वन्तरि कहलाने लगा था ॥ ९ ॥ वह युद्धिमान् राजा
दीर्घतपाके वृद्ध होकर तप करने पर उत्पन्न हुआ था वह धन्व-
न्तरि देवता फिर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ था ॥ १० ॥ जनमे-

ते यदा तु सुसंमूढा रागोन्मत्ता विधर्मिणः । ब्रह्मद्विपथ संवृत्ता
 हतवीर्यपराक्रमाः ॥ ३५ ॥ ततो लेभे सुरैश्वर्यमिन्द्रः स्थानं
 तथोत्तमम् । इत्वा रजिसुतान् सर्वान् कामक्रोधपरायणान् ३६
 य इदं च्यावनं स्थानात् प्रतिष्ठां च शतक्रतोः । मृणुयाद्धारयेद्वापि
 न स दीरात्म्यमाप्नुयात् ॥ ३७ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

आयुर्वंशकीर्त्तनं नाम अष्टाविंशोऽध्यायः ॥२८॥

वैशम्पायन उवाच । रम्भोऽनपत्यस्तत्रासीद्वंशं वक्ष्याम्यने-
 नसः । अनेनेसः सृतो राजा प्रतित्तत्रो महायशाः ॥ १ ॥ प्रति-
 त्तत्रसुतरचापि सृञ्जयो नाम विश्रुतः । सृञ्जयस्य जयः पुत्रो विज-
 यस्तस्य चात्मजः ॥ २ ॥ विजयस्य कृतिः पुत्रस्तस्य हर्यश्वतः-
 सृतः । हर्यश्वतसृतो राजा सहदेवः प्रतापवान् ॥ ३ ॥ सहदेवस्य
 धर्मात्मा नदीन इति विश्रुतः । नदीनस्य जयत्सेनो जयत्सेनस्य
 वे जय रागसे उन्मत्त मूढ विधर्मी ब्रह्मद्वेषी और निर्वीर्य होगये ३५
 तव इन्द्रने काम और क्रोधमें परायण रहने वाले रजिके पुत्रोंके
 मार कर उत्तम देवैश्वर्य पाया था ॥ ३६ ॥ जो मनुष्य इन्द्रके
 इसस्थानसे भ्रष्ट होनेकी और उस पर फिर आरुढ़ होनेकी कथा
 को सुनता है वा इसको धारण करता है, उसकी कभी दुर्गति
 नहीं होती है ॥ ३७ ॥ अष्टाईसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥

वैशंगायन कहते हैं, कि—उनमें रंभ निःसन्तान था अतः मैं
 अनेनाके वंशको कहता हूँ, अनेनाके प्रतित्तत्र नामक महायशस्वी
 पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥ १ ॥ प्रतित्तत्रका पुत्र सृञ्जय नामसे
 प्रसिद्ध है, सृञ्जयके जय हुआ और जयके विजय नामक पुत्र
 हुआ ॥ २ ॥ विजयके कृति नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र
 हर्यश्वत हुआ उसके सहदेव नामक प्रतापी पुत्र हुआ ३सहदेवके
 धर्मात्मा नदीन नामक पुत्र हुआ, नदीनके जयत्सेन और जयत्सेन

संक्रुतिः ॥४॥ संक्रुतेरपि धर्मात्मा क्षत्रधर्मा महायशाः । अनेनसः
समाख्याताः क्षत्रवृद्धस्य मे शृणु ॥ ५ ॥ क्षत्रवृद्धात्मजस्तत्र सुन-
होत्रो महायशाः । सुनहोत्रस्य दायादास्त्रयः परमधार्मिकाः ॥६॥
काशः शल्लश्च द्वावेतौ तथा वृत्समदः मधुः । पुत्रो वृत्समदस्यापि
शुनको यस्य शौनकाः ॥ ७ ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रियारचैव वैश्याः
शूद्रास्तथैव च । शलात्मजश्चाष्टिषेणस्तनूनस्तस्य काशकः ॥८॥
काशस्य काशपो राजन् पुत्रो दीर्यतपास्तथा । धन्वस्तु दीर्यतपसो
विद्वान् धन्वन्तरिस्ततः ॥ ९ ॥ तपसोते सुमहतो जातो वृद्धस्य
धीमतः । पुनर्धन्वन्तरिर्देवो मानुषेष्विह जज्ञिवान् ॥१०॥ जनमे-
जय उवाच । कथं धन्वन्तरिर्देवो मानुषेष्विह जज्ञिवान् । एतद्दे-

के संक्रुति नामक पुत्र हुआ ॥४॥ संक्रुतिके भी धर्मात्मा क्षत्रधर्मा
नामक महायशस्वी पुत्र हुआ, अनेनाके वंशजोंका वर्णन
कर दिया अब तुम क्षत्रवृद्धके वंशजोंको सुनो ॥ ५ ॥
क्षत्रवृद्ध अर्थात् वृद्धशर्मा उपनाम वाले राजाका सुनहोत्र नामक
महायशस्वी पुत्र हुआ सुनहोत्रके परमधार्मिक तीन पुत्र हुए ६
काश और शल्ल ये दो और (तीसरा) मधु वृत्समद वृत्स-
मदके शुनक नामक पुत्र हुआ उसके वंशज शौनक कहलाते
हैं ॥ ७ ॥ वृत्समदकी सन्ततिमें शुनक आदि ब्राह्मण
हुए थे और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र पुत्र भी उत्पन्न हुए ।
(सुनहोत्रके मध्यम पुत्र) शल्लके आष्टिषेण नामक पुत्र
हुआ उसका पुत्र काशक हुआ ॥ ८ ॥ (सुनहोत्रके प्रथम पुत्र)
काशके हे राजन् ! काशि नामक पुत्र हुए और (उनमें पहिला)
दीर्यतपा नामक पुत्र हुआ, दीर्यतपाके धन्व हुआ वह विद्वान्
फिर धन्वन्तरि कहलाने लगा था ॥ ९ ॥ वह बुद्धिमान् राजा
दीर्यतपाके वृद्ध होकर तप करने पर उत्पन्न हुआ था वह धन्व-
न्तरि देवता फिर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ था ॥ १० ॥ जनमे-

दितुमिच्छामि तन्मे ब्रूहि यथातथम् ॥११॥ वैशम्पायन उवाच ।
 धन्वन्तरेः संभवोऽयं श्रयतां भरतर्षभ । जातः स हि समुद्रात्
 मध्यमाने पुराऽमृते ॥ १२ ॥ उत्पन्नः कलशात् पूर्वं सर्वतरुच
 श्रिया वृतः । अभ्यसन् सिद्धिकार्यं हि विष्णुं दृष्ट्वा हि तस्थि-
 वान् ॥ १३ ॥ अञ्जस्त्वपिनि होवाच तस्मादञ्जस्तु सः स्मृतः ।
 अञ्जः प्रोवाच विष्णुं वै तत्र पुत्रोऽस्मि वै प्रभो ॥ १४ ॥
 विशस्त्व भागं स्थानं च मम लोकं सुरेश्वर । एवमुक्तः स दृष्ट्वा
 वै तथ्यं प्रोवाच तं प्रभुः ॥ १५ ॥ कृनो यज्ञविभागो हि यज्ञि-
 यैर्हि सुरैः पुरा । देवेषु विनियुक्तं हि विद्धि होत्रं महर्षिभिः १६
 न शक्यमुपहोषा वै तुभ्यं कर्तुं कदाचन । अर्वाग्भूतोऽसि देवानां

जपने कहा, कि—धन्वन्तरि देवता मनुष्योंमें फिर कैसे उत्पन्न
 हुए थे, मैं इसके जानना चाहता हूँ अतः आप यथार्थरीतिसे
 इनका वृत्तान्त कहिये ॥ ११ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-
 हे भरतर्षभ ! तुम धन्वन्तरिणी उत्पत्तिको सुनो, पहिले अमृतके
 लिये समुद्रको मथने पर वह समुद्रमेंसे निकले थे ॥ १२ ॥
 वह समुद्रमेंसे सब ओरसे सुशोभित हो विष्णुका ध्यान करते
 हुए निकले थे और उनको देखकर खड़े होगए १३ विष्णुने उनसे
 अञ्ज (जलसे उत्पन्न हुए) कहा, इस लिये वे अञ्ज कहलाते
 हैं, अञ्जने विष्णुसे कहा, कि—हे प्रभो ! मैं तुम्हारा पुत्र हूँ १४
 हे सुरेश्वर ! अब आप कृपा करके मेरा भाग और लोक नियत
 कर दीजिये इस प्रकार कहने पर उन्होंने तथ्य बात कही कि १५
 यज्ञमें भाग पाने वाले देवताओंने पहिले (यज्ञके पदार्थों) का
 विभाग कर लिया है महर्षियोंने देवताओंके लिये यज्ञ भागको
 बाँट दिया है १६ ॥ श्लोके २ होम तैरे अर्पण करना अनुचित है
 (तत्र मुख्य होमका मेरे लिये विधान कर दीजिये ऐसा न कहे,
 इस लिये कहा, कि—) हे पुत्र ! तू देवताओंमें पीछे उत्पन्न

पुत्र त्वं तु न हीरवः ॥ १७ ॥ द्वितीयायां तु संभृत्यां लोके ख्यातिं
 गमिष्यसि । अणिमादिश्च ते सिद्धिर्गर्भस्थस्य भविष्यति १८
 तेनैव त्वं शरीरेण देवत्वं प्राप्स्यसे प्रभो । चरुमन्त्रैर्व्रतैर्जाप्यै-
 र्यदयन्ति त्वां द्विजातयः ॥ १९ ॥ अष्टथा त्वं पुनश्चैवमायुर्वेदं
 विधास्यसि । अवश्यम्भावि स्वर्गोऽयं माग्दृष्टस्त्वज्जयोनिना २०

हुआ है, अतः तू भाग पानेमें सर्पथ नहीं होसकता परन्तु तू
 दूसरे जन्ममें प्रसिद्धि पावेगा और तू जब गर्भमें होगा
 तब ही तुझे अणिमा सिद्धि मिल जावेगी ॥ १८ ॥
 हे प्रभो ! तू उसी शरीरसे देवत्वको प्राप्त होगा और द्विजातिके
 पुरुष चरु मन्त्र व्रत और जपनेके मन्त्रोंसे तेरा यजन करेगे (भाष
 यह है, कि-सीढ़ी पर चढ़नेके क्रमसे अधिकाररूपी अग्निके द्वारा
 ऊर्ध्वपद पर आरूढ़ होने पर पहिले भूमिमें कर्म करनेसे कृत-
 कृत्य दूसरा हुआ पुरुष उस पद पर आरूढ़ होता है, मन्वन्तरां-
 ध्यायमें भी कहा है, कि-“कृत्वा कर्म दिवं यान्ति ब्रह्मलोकं
 सनातनम् । ततोऽन्ये तपसा युक्ता स्थानमापूरयन्त्युत-अर्थात्
 पुरुष कर्म करके सनातन ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं तब दूसरे
 तपोबल वाले पुरुष उस पदकी पूर्ति कर देते है”) ॥ १९ ॥
 तब तू आठ प्रकारके आयुर्वेदको रचेगा यह बात अवश्य होगी
 और इसको कमलयोनि ब्रह्माजीने पहिले (कल्पमें भी देखा
 था (चिकित्साके भेदसे आयुर्वेद भी आठ प्रकारका कहलाता
 है, उन आठ अङ्गोंका वर्णन इस श्लोकमें करते हैं, कि-“काय-
 बालप्रदोर्ध्वांगशल्पदंष्ट्राजरादृशान् । अष्टावंगानि तस्याहुश्चिकित्सा
 येषु सध्रिना-अर्थात् शारीरिकचिकित्सा बालचिकित्सा भूत-
 प्रेत आदिग्रहचिकित्सा ऊपरी अंग शिर नेत्र आदिकी चिकित्सा
 शल्यचिकित्सा अर्थात् चीर फाड़ दंष्ट्राचिकित्सा अर्थात् स्थावर
 जंगम विषकी चिकित्सा जरामचिकित्सा अर्थात् रस आदिके द्वारा

द्वितीयं द्वापरं प्राप्य भविता त्वं न संशयः । इमं तस्मै वरं दत्त्वा
 विष्णुरन्तर्दधे पुनः ॥ २१ ॥ द्वितीये द्वापरे प्राप्ते सौनहोत्रिः स
 स काशिराट् । पुत्रकामस्तपस्तेपे धिन्वन् दीर्घतपास्तदा ॥ २२ ॥
 मय्ये देवता तान्तु या मे पुत्रं मदास्यति । अञ्जं देवं सुतोर्ध्वय
 तदाऽराधितवान्नृपः ॥ २३ ॥ ततस्तुष्टः स भगवानञ्जः प्रोवाच
 तं नृपम् । यदीच्छसि वरं ब्रूहि तच्चेदास्यामि सुव्रत ॥ २४ ॥
 नृप उवाच । भगवन् यदि तुष्टस्त्वं पुत्रो मे ख्यातिमान् भव ।
 तथेति समनुज्ञाय तत्रैवान्तरधीयत ॥ २५ ॥ तस्य गेहे समु-
 त्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा । काशिराजो महाराज सर्वरोग-
 प्रणाशनः ॥ २६ ॥ आयुर्वेदं भरद्वाजात् प्राप्येह भिषजां क्रियाम् ।

जरा-बुढ़ापे-को दूर करना वृषचिकित्सा अर्थात् वाजीकरण ये
 आठ वैद्यकके अंग हैं इनमें चिकित्सा शास्त्र भरा हुआ है) २०
 तू दूसरे द्वापरयुगके आने पर उत्पन्न होगा भगवान् विष्णु इस
 प्रकार वर देकर अन्तर्धान होगए ॥ २१ ॥ दूसरे द्वापर युगके
 आने पर सुनहोत्रका पुत्र काशिराज दीर्घतपा पुत्रकी कामनासे
 देवताओंको प्रसन्न करनेके लिये तप करने लगा २२ [उसने
 अपने मनमें विचार किया था कि-] मैं उस देवताकी उपासना
 करूँ, जो मुझे पुत्र प्रदान कर सके फिर वह राजा पुत्र पानेके
 लिये अञ्ज देवताकी आराधना करने लगा ॥ २३ ॥ तब भग-
 वान् अञ्ज अर्थात् धन्वन्तरि उससे प्रसन्न होकर कहने लये,
 कि-तू जिस वरको चाहता हो उसे माँग ले, हे सुव्रत ! उस
 वरको मैं तुझे दूँगा ॥ २४ ॥ राजाने कहा, कि-हे भगवन् !
 यदि आप प्रसन्न हों तो आप येरे प्रसिद्ध पुत्र बनिये, तब
 धन्वन्तरि तथास्तु कह कर अन्तर्धान होगए ॥ २५ ॥ फिर देव
 धन्वन्तरि उसके घरमें सब रोगोंको नष्ट करने वाले काशिराज
 बन कर उत्पन्न हुए ॥ २६ ॥ उन्होंने भरद्वाज ऋषिसे आयु-

तमपृथा पुनर्घ्यस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत् ॥ २७ ॥ धन्वन्तरेस्तु
 तनयः केतुमानिति विश्रुतः । अथ केतुमतः पुत्रो वीरो भीमरथः
 स्मृतः ॥ २८ ॥ सुतो भीमरथस्यापि दिवोदासः प्रजेश्वरः । दिवो-
 दासस्तु धर्मात्मा वाराणस्यधिपां भवत् ॥ २९ ॥ एतस्मिन्नेव काले
 तु पुरीं वाराणसीं नृप । शून्यां निवासयामास क्षेमको नाम
 राज्ञसः ॥ ३० ॥ शप्ता हि सा मतिमता निकुम्भेन महात्मना ।
 शून्या वर्षसहस्रं वै भवित्री नात्र संशयः ॥ ३१ ॥ तस्यां तु शप्त-
 मात्रायां दिवोदासः प्रजेश्वरः । विषयान्ते पुरीं रम्यां गोमत्यां
 सन्यवेशयत् ॥ ३२ ॥ भद्रश्रेण्यस्य पूर्वं तु पुरी वाराणसी ह्यभूत् ।
 भद्रश्रेण्यस्य पुत्राणां शतमुत्तमधन्विनाम् ॥ ३३ ॥ हत्वा निवेश-
 यामास दिवोदासो नरर्षभः । भद्रश्रेण्यस्य तद्राज्यं हृतं तेन बली-
 यसा ॥ ३४ ॥ जनमेजय उवाच । वाराणसीं निकुम्भस्तु किमर्थं

बंद और चिकित्साप्रक्रियाको सीख कर उसके आठ विभाग
 किये और शिष्योंको पढ़ाया था २७ धन्वन्तरिका पुत्र केतुमान्
 नामसे मसिद्ध है और केतुमान्का पुत्र वीर भीमरथ कहलाता
 है ॥ २८ ॥ भीमरथका पुत्र दिवोदास प्रजाधीश मसिद्ध था
 धर्मात्मा दिवोदास वाराणसीका स्वामी होगया था ॥ २९ ॥
 दिवोदासके राज्यकालमें शून्य पड़ी हुई वाराणसीको क्षेमक
 नाम वाले राजसने बसाया था ॥ ३० ॥ महात्मा निकुम्भने
 उसको शाप दिया था, कि-तू एक सहस्र वर्ष तक शून्य पड़ी
 रहेगी, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ३१ प्रजेश्वर दिवादासने उस
 शासनकालमें अपने देशके पास गोमतीके तट पर रमणीय पुरी
 बसाई थी ॥ ३२ ॥ पहिले [यदुवांशी महिष्मान्के पुत्र] भद्रश्रेण्य
 की वाराणसी पुरी थी, भद्रश्रेण्यके सौ उत्तम धनुर्धर पुत्र थे ३३
 उनको मार कर नरश्रेष्ठ बली दिवोदासने राजा भद्रश्रेण्यके
 राज्यको छीन लिया था ॥ ३४ ॥ जनमेजयने कहा, कि-प्रभु

शाप्तवान् प्रभुः । निकुम्भः कश्च धर्मात्मा सिद्धिन्नेत्रं शशाप-यः ३५
 वीशम्पायन उवाच । दिवोदासस्तु राजर्षिर्नगरीं प्राप्य पार्थिवः ।
 वसति स्म महातेजाः स्फीतायां तु नराधिपः ॥ ३६ ॥ एतस्मि-
 न्नेव काले तु कृतदारो महेश्वरः । देव्याः स प्रियकामस्तु न्यव-
 सच्छुशुरान्तिके ॥ ३७ ॥ देवाज्ञया पार्षदा ये त्वधिरूपास्तपो-
 धनाः । पूर्वोक्तैरूपदेशैश्च तोषयन्ति स्म पार्वतीम् ॥ ३८ ॥ हृष्यते
 वै महादेवी मेना नैव प्रहृष्यति । जुगुप्सत्यसकृत्तां वै देवीं देवं
 तथैव सा ॥ ३९ ॥ सपार्षदस्त्वनाचारस्तय भर्ता महेश्वरः । दरिद्रः
 सर्वदेवासौ शीलं तस्य न वर्तते ॥ ४० ॥ मात्रा तथोक्ता वरदा
 स्त्रीस्वभावाच्च चुक्रुधे । स्मितं कृत्वा च वरदा भवपार्श्वमथा-
 गमन् ॥ ४१ ॥ विवर्णवदना देवी महादेवमभाषत । नेह वत्स्या-

निकुम्भने वाराणसीको किस लिये शाप दिया था, और जिन्होंने
 सिद्धिन्नेत्र, अर्थात् मोक्षनेत्र काशीको शाप दिया था वह निकुम्भ
 कौन थे ॥ ३५ ॥ वीशम्पायनजीने कहा कि महातेजस्वी राजा
 दिवोदास नगरीके पाकर उसमें रहने लगा ॥ ३६ ॥ इसी
 समय भगवान् महादेव विवाह करके पार्वतीका प्रिय करनेकी
 इच्छासे अपने श्वसुरके भवनमें रहते थे [इसी समय दिवोदासने
 वाराणसी पाई थी, ३७ उस समय तपके धन माननेवाले जो योग्य
 पार्षद थे वे शिवकी आज्ञासे उनके पहिले दिये हुए उपदेशके
 अनुसार पार्वतीको सन्तुष्ट करते रहते थे ॥ ३८ ॥ उससमय देवी
 पार्वती तो प्रसन्न रहती थी परन्तु [पार्वतीका माता] मेना
 प्रसन्न नहीं रहती थी, वह तो महादेव और देवी पार्वतीकी सदा
 निन्दा ही करती थी, कि- ॥ ३९ ॥ तेरा भर्ता और उसके अनु-
 चर अनाचारी हैं दरिद्र हैं और उनमें शीलका तो पता ही
 नहीं है ॥ ४० ॥ माताके इस प्रकार कहने पर वह वरदान देने वाली
 स्त्रीस्वभावके कारण क्रोधमें भर गई और मुस्कराती हुई शिवजी

म्पहं देव नय मां स्वं निकेतनम् ॥ ४२ ॥ तथा कर्तुं महादेवः
 सर्वलोकाननौत्तन । वासार्थं रोचयामास पृथिव्यां कुरुनन्दन ४३
 वाराणसीं महातेजाः सिद्धिज्ञेन महेश्वरः । दिवोदासेन तां
 ज्ञात्वा निविष्टां नगरीं भवः ॥ ४४ ॥ पार्श्वे तिष्ठन्तमाहूय निकुम्भ-
 मिदमब्रवीत् । गणेश्वरपुरीं गत्वा शून्यां वाराणसीं कुरु ॥ ४५ ॥
 मृदुनैवाभ्युपायेन हतिवीर्यः स पार्थिवः । ततो गत्वा निकुम्भस्तु-
 पुरीं वाराणसीं तदा ॥ ४६ ॥ स्वप्ने निदर्शयामास कण्डुकं
 नाम नापितम् । श्रेयस्तेऽहं करिष्यामि स्थानं मे रचयाऽनघ ४७
 मद्रूपां प्रतिमां कृत्वा नगर्यन्ते तथैव च । ततः स्वप्ने यथोद्दिष्टं
 सर्वं कारितवानृष ॥ ४८ ॥ पुरीद्वारे तु विज्ञाप्य राजानं च यथा-
 विधि । पूजां तु महतीं तस्य नित्यमेव प्रयोजयत् ॥ ४९ ॥ गन्धैश्च
 के पास चली गई ४१ और वह उतरे हुए मुखसे महादेवजी
 से कहने लगी, कि-हे देव ! मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, आप
 मुझे अपने घर ले चलिये ॥ ४२ ॥ तब महादेवजीने ऐसा करने
 के लिये सब लोकोंकी ओर दृष्टि डाली, और हे कुरुनन्दन! उन्होंने
 निवास करनेके लिये सिद्धिज्ञेन वाराणसीको मनोनीत किया
 फिर महातेजस्वी महेश्वरने उस नगरीमें दिवोदासको बसते देख
 कर ॥ ४४ ॥ अपने समीपमें खड़े हुए निकुम्भको बुला कर
 कहा, कि-तू गणेश्वरपुरीमें जाकर उसको खाली करवा दे ४५
 तू कोमल उपायसे उसको खाली करवाना, क्योंकि-वह राजा
 महाबली है, तब उसने वाराणसी पुरीमें जाकर कण्डुक नाम
 वाले नाईको स्वप्नमें दर्शन देकर कहा, कि-हे निष्पाप ! तू
 मेरा स्थान बना तो मैं तेरा कल्याण करूँगा ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ तू
 मेरी समान प्रतिमा बना कर नगरीके बाहर स्थापित करना,
 हे राजन् ! तब उसने राजाकी आज्ञा लेकर नगरीके बाहर
 स्वप्नके कथनानुसार सब कुछ किया और प्रति दिन उसकी

धूपमान्यैश्च मोक्षणीयैस्तथैव च । अन्नपानमयोगैश्च अत्यद्भुत-
मिवाभवत् ॥५०॥ एवं संपूज्यते तत्र नित्यमेव गणेश्वरः । ततो वरु-
सहस्रन्तु नागराणां प्रयच्छति।पुत्रान् हिरण्यमायुश्च सर्वान् कामा-
स्तथैव च ॥ ५१ ॥ राज्ञस्तु महिषी श्रेष्ठा सुयशा नाम विश्रुता ।
पुत्रार्थमागता देवी साध्वी राज्ञा प्रचोदिता ॥ ५२ ॥ पूजां तु
विपुलां कृत्वा देवी पुत्रमयाचत । पुनः पुनरथागत्य बहुशः पुत्र-
कारणात् ॥ ५३ ॥ न मयच्छति पुत्रं हि निकुम्भः कारणेन हि
राजा तु यदि नः कुप्येत् कार्यसिद्धिस्ततो भवेत् ॥ ५४ ॥ अथ
दीर्घेण कालेन क्रोधो राजानमाविशत् । भूत एष महान् द्वारि
नागराणां मयच्छति ॥ ५५ ॥ प्रीतो वरान् वी शतशो मम किं
न मयच्छति । मामकैः पूज्यते नित्यं नगर्यां मे सदैव हि ।५६।

बड़ी भारी पूजा करने लगा ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ वह गंध माल्य
धूप और छिड़कनेके पदार्थोंसे और अन्न तथा शरवत चढ़ाकर
(जब पूजा करता था) तो बड़ा अद्भुत दृश्य दिखाई देता था ५०
इस प्रकार तहाँ पर उस गणेश्वरकी पूजा सदा होती रहती थी
और वह नागरिकोंको पुत्र धन और सकल कामनाएँ आदि
सहस्रों वर देता था ॥ ५१ ॥ तहाँके राजाकी सुयशा नामसे
प्रसिद्ध पटरानी थी, वह साध्वी राजाकी प्रेरणासे पुत्रके लिये
(उस स्थान पर) आई ॥५२॥ उस देवीने पुत्रके कारण तहाँ
बार-बार बड़ी भारी पूजा कर पुत्रही याचना की ॥ ५३ ॥
परन्तु निकुंभ कारणवश उसको पुत्र होनेका वरदान नहीं देता
था (वह कारण यह था, कि-) यदि राजा मेरे ऊपर कुपित
होनायगा तो मेरा कार्य सिद्ध होनायगा ॥५४॥ इसके उपरान्त
बहुत समय पीछे राजाको क्रोध आया, कि यह महात्मा माणी
मेरे द्वार पर रहता है और प्रसन्न होने पर मेरे नागरिकोंको तो
सहस्रों वर देता है, फिर यह मुझे वर क्यों नहीं देता है ? मेरे

विज्ञापितो मयाऽत्यर्थं देव्या मे पुत्रकारणात् । न ददाति च पुत्रं
 मे कृतघ्नः केन हेतुना ॥५७॥ ततो नार्हति सत्कारं मत्सकाशात्
 विशेषतः । तस्मात्तु नाशयिष्यामि स्थानमस्य दुरात्मनः ॥५८॥
 एवं स तु विनिश्चित्य दुरात्मा राजकिञ्चिपि । स्थानं गणपते-
 स्तस्य नाशयामास दुर्मतिः ॥ ५९ ॥ भग्नमायतनं दृष्ट्वा राजा-
 नमशपत् प्रभुः । यस्मादनपराधस्य त्वया स्थानं विनाशितम् ।
 पुर्यकस्मादियं शून्या तव नूनं भविष्यति ॥ ६० ॥ ततस्तेन तु
 शापेन शून्या चाराणसी तदा । शप्त्वा पुरीं निकुम्भस्तु महा-
 देवमथागमत् ॥ ६१ ॥ अकस्मात्तु पुरी सा तु विद्रुता सर्वतो
 दिशम् । तस्यां पुर्यां ततो देवो निर्ममे पदमात्मनः ॥ ६२ ॥
 रमते तत्र वै देवो रममाणो गिरेः सुताम् । न रतिं तव वै देवी

मनुष्य ही इस नगरीमें इसकी पूजा करते हैं ॥ ५५ ॥ ५६ ॥
 परन्तु मेरी स्त्रीने पुत्रके लिये बारम्बार याचनाकी, तब भी यह
 कृतघ्न मुझे पुत्र क्यों नहीं देता है ॥ ५७ ॥ अत एव यह मेरे यहाँ
 विशेष सरकार पानेका पात्र नहीं है, अत एव मैं इस दुरात्माके
 स्थानको नष्ट कर डालूँगा ॥ ५८ ॥ उस पापी राजाने इसप्रकार
 निश्चय किया, फिर उस दुर्मतिने उस गणपतिके मठको नष्ट
 करवा दिया ॥ ५९ ॥ प्रभु निकुम्भने अपने मठको भग्न हुआ
 देख कर राजाको शाप दिया, कि-हे राजन् ! तूने मुझ निरप-
 राधके स्थानको नष्ट कर डाला है, इस कारण तेरी पुरी अक-
 स्मात् शून्य होजावेगी ॥ ६० ॥ तदनन्तर उसके शापसे चारा-
 णसी उजाड़ होगई पुरीको शाप देनेके अनन्तर निकुम्भ महा-
 देवजीके पास पहुँच गया ॥ ६१ ॥ जब वह पुरी अकस्मात्
 उजाड़ होगई तब महादेवजीने तहाँ अपना (मोक्षलक्ष्मीविलास
 पद बनाया ॥ ६२ ॥ भगवान् शिव तहाँ पर गिरिपुत्री पार्वती
 के साथ विहार करने लगे परन्तु यहविस्मयके कारण

लभते गृहविस्मयात् वसाम्पत्र न पुर्यां तु देवी देवमथाव्रवीत् ६३
 देव उवाच । नाहं वेशमनि वत्स्यामि अविमुक्तं हि मे गृहम् ।
 नाहं तत्र गमिष्यामि गच्छ देवि गृहं प्रति ॥ ६४ ॥ हसन्नुवाच
 भगवान् व्यम्बकस्त्रिपुरान्तकः । तस्मात्तदविमुक्तं हि प्रोक्तं देवेन
 देवी तर्हो मसन्न नहीं रहती थी तव देवीने देवसे कहा; कि-मैं
 इस पुरीमें नहीं रहूँगी (तात्पर्य-भगवान् शिव तो अपने
 स्वरूपके अनुकूल उस नगरमें रमण करते थे, परन्तु देवी माया-
 स्वरूपा थी अपना उच्छेद (नाश) करने वाले उस क्षेत्रमें उनका
 चित्त नहीं लगता था, इसका कारण गृहविस्मय था, अर्थात्
 गृह—अविमुक्त—को देख तर्हो विस्मय होता था अर्थात् काशी-
 वास अनधिकारी पुरुषोंको भी (अधिकारी बना कर)
 उनको मुक्त कर देता है, अत एव देवीका चित्त नहीं लगता
 था) ॥६३॥ महादेवजीने कहा, कि-मैं घरमें निवास नहीं करूँगा
 मेरा घर तो अविमुक्त है, हे देवि! मैं (तेरे) घरमें नहीं जाऊँगा
 तू घरको चली जा (तात्पर्य-मैं नित्य-मुक्त ईश्वर हूँ मैं शरीर
 नाम वाले घरमें बसना नहीं चाहता हूँ, क्यों कि-मेरा घर
 अविमुक्त है, क्यों कि-वह त्रिकालमें भी विमुक्त नहीं रहता है;
 क्योंकि-वह अहेय (अत्याज्य) और अनुपादेय आत्मस्वरूप
 है, वही प्रत्यक्-चैतन्य मेरा घर है मैं अपनी महिमा में
 प्रतिष्ठित रहाता हूँ अतः मैं देहपतिष्ठ नहीं रहूँगा, तुझे
 संसार प्रदेशरूप गृह इष्ट हो तो तू उस देहमें निवास कर मैं तो
 असद् हूँ, इससे यह सूचित किया है, कि—काशीका त्याग
 करना ही संसारका स्वीकार करना है और उसका त्याग न
 करना मोक्ष नामक स्वरूपमें स्थिति करना है) ॥ ६४ ॥ त्रिपुर
 नाशक व्यम्बक भगवान्ने यह बात हँस कर कही थी, देवदेवने
 स्वयं ही यह बात कही थी, अत एव (वाराणसी पुरी)

वै स्वयम् ॥ ६५ ॥ एवं वाराणसी शप्ता अविमुक्तं च कीर्त्तितम् ॥ ६६ ॥ यस्मिन् वसति वै देवः सर्वदेवनमस्कृतः ।- युगेषु त्रिषु धर्मात्मा सह देव्या महेश्वरः ॥ अन्तर्धानं कृत्वा याति तत्पुरं हि महात्मनः । अन्तर्हिते पुरे तस्मिन् पुरी सा वसते अविमुक्त इहलाती है (तात्पर्य-जिनके श्रवण मनन और ध्यान रूप अम्बक-नेत्रकी समाप्त प्राप्ति करने वाले हैं ऐसे शिव-उपम्बक कहलाते हैं, श्रुतिमें भी कहा है, कि-“ आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः शोतव्यः मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः-अर्थात् आत्माका दर्शन श्रवण और निदिध्यासन करना चाहिये” इस प्रकार आत्मदर्शनके साधनरूप श्रवणादि तीन साधन-महादेवजीमें है अतएव स्थूल सूक्ष्म कारणरूप तीन पुररूप शरीरोंके नाशक महादेवजीने समझा कि-यह अविद्यारूप भी पुरतत्त्वको नहीं जानती है, अत एव वह हँसे थे, महादेवजीने कहा था, कि-मेरा घर अविमुक्त है अत एव वाराणसी क्षेत्र अविमुक्त इहलाता है) ॥ ६५ ॥ इस प्रकार वाराणसीको शाप मिला था और अविमुक्तका कीर्तन किया गया था यहाँ अपकृत अविमुक्तका कीर्तन करके उपरिधारणन्यायसे वाराणसीके मुख्य अविमुक्तत्वको दिखाया है, जावालोंने भी कहा है, कि “सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठितः-वह अविमुक्त में प्रतिष्ठित रहता है इस अविमुक्तप्रतिष्ठितत्वका आत्मामें आरोपण करके वह अविमुक्त कर्ता है, ऐसी शंका होने पर कहते हैं, कि वह वरणा और नासामें प्रतिष्ठित रहता है अर्थात् भू और नासिकाकी संधिका नाम अविमुक्त है) ६६ जिनको सद्ग-देवता प्रणाम करते हैं ऐसे धर्मात्मा-महेश्वर देवोंके साथ-जीनों युगोंमें तहाँ निवास करते हैं ६७कलियुगमें उन महात्माका पुर अन्तर्धान होने पर वह फिर (सत्ययुगकी आदिमें) बस जाती है, इस प्रकार वाराणसीको शाप लगा था और वह फिर बस गई थी, (तात्पर्य-

पुनः । एवं वाराणसी शप्ता निवेशं पुनरागता ॥ ६८ ॥ भद्र-
श्रेण्यस्य पुत्रो वै दुर्दमो नाम विश्रुतः । दिवोदासेन बालेति
घृणया स च वजितः ॥ ६९ ॥ हैहयस्तु दायाद्यं कृतवान् वै मही-
पतिः । आजहो पिठुदायाद्यं दिवोदासहृतं बलात् ॥ ७० ॥ भद्र-
श्रेण्यस्य पुत्रेण दुर्दमेन महात्मना । नैरस्यान्तं महाराज क्षत्रि-
येण विधित्सता ७१ दिवोदासाद् वृषद्वत्यां वीरो जज्ञे प्रतर्दनः । तेन
पुत्रेण बालेन महतं तस्य वै पुनः ॥ ७२ ॥ प्रतर्दनस्य पुत्रो द्वौ

पुर बाले पुरी महादेव पुरके अन्तर्धान होने पर आप भी
उसमें अन्तर्धान होकर रहते हैं (अर्थात् देवताकी प्रतिमाका
उच्छेद होने पर भी देवताकी समीपता दूर नहीं होती है) यहाँ
पुरीका अन्तर्धान होना कहा है, पुरीका उच्छेद नहीं कहा है, इसी
प्रकार पुरपति भी अन्तर्हित होजाते हैं, जब तक कलिका संध्यांश
रहता है तब तक द्वापरयुगके भी बहुतसे धर्म वर्तमान रहते-हैं
अत एव बत्तीस सहस्र वर्ष तक पुरी अन्तर्धान नहीं होती है,
पूर्णरूपसे कलियुगकी प्रवृत्ति होने पर ही पुरी अन्तर्धान होती
है, अत एव वह आज कल कलियुगके पाँच सहस्र वर्ष बीत जाने
पर भी दिखाई देरही है) ॥ ६८ ॥ भद्रश्रेण्यका (सबसे अन्तिम)
पुत्र दुर्दम नामसे प्रसिद्ध था, दिवोदासने उसको बालक समझ
कर दया आजानेसे छोड़ दिया था ॥ ६९ ॥ उसने हैहय
(दिवोदास) का पुत्र बनना स्वीकार कर लिया था इसप्रकार
उसने नरपति बन कर दिवोदासके द्वारा जवर्दस्ती छीने हुए
अपने पिताके राज्यको लौटा लिया था ॥ ७० ॥ हे महाराज !
वैरका अन्त करना चाहने वाले भद्रश्रेण्यके दुर्दम नाम वाले
महात्मा क्षत्रिय पुत्रने (ऐसा किया था) ॥ ७१ ॥ दिवोदास
से वृषद्वतीमें प्रतर्दन नामक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ था उस पुत्रने
वाज्यावस्थामें ही अपना राज्य उससे फिर लौटा लिया था ७२

वत्सभागीं वभूवतुः । वत्सपुत्रो ब्रह्मर्कस्तु सन्नतिस्तस्य चात्मजः
 अलर्कः काशिराजस्तु ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः । अलर्क प्रति राजर्षि
 लोकैर्गतिः पुरातनैः ॥७४॥ षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिं वर्षशतानि
 च । युवा रूपेण सम्पन्न आसीत् काशिकुलोद्भवः ॥ ७५ ॥
 लोपागुद्रापसादेन परमायुस्वाप सः । तस्यासीद् सुमहद्राज्यं
 रूपगौवनशालिनः । शापस्यान्ते महाबाहुर्हत्वा क्षेमकरान्न-
 सम् ॥ ७६ ॥ रम्यां निवेशयामास पुरीं वाराणसीं पुनः ।
 सन्नतेरपि दायादः सुनीथो नाम धार्मिकः ॥ ७७ ॥ सुनीथस्य
 तु दायादः क्षेम्यो नाम महायशाः । क्षेम्यस्य केतुमान् पुत्रः
 सुकेतुस्तस्य चात्मजः ॥ ७८ ॥ सुकेतोस्तनयश्चापि धर्मकेतुरिति
 स्मृतः । धर्मकेतोस्तु दायादः सत्यकेतुर्महारथः ॥ ७९ ॥ सत्य-
 केतुस्तथापि त्रिभुवने मजेश्वरः । आनर्तस्तु विभोः पुत्रः सुक-

प्रतर्दनके वत्स और भार्ग नाम वाले दो पुत्र हुए वत्सका पुत्र
 अलर्क हुआ उसका पुत्र सन्नति हुआ ॥७३॥ काशिराज अलर्क
 सत्य प्रतिज्ञा करने वाला था और ब्राह्मणभक्त था, राजर्षि
 अलर्कके सम्बन्धमें प्राचीन मनुष्योंने कहा है, कि-७४वह काशि-
 कुलोद्भव राजा छियासठ सहस्र वर्ष तक तरुण बना रहा था ७५
 उसने लोपागुद्राके प्रसादसे परमायु पाई थी, उस रूपवान् तरुण
 पुरुषका राज्य बड़ी दूर तक फल गया था (निकुंभके) शापके
 अन्तमें उस महाबाहुने क्षेमक राजसको मार कर (सहस्र वर्ष
 तक राजससे दबी रहनेके कारण अरम्य बनी हुई) वाराणसी-
 पुरीको रमणीय बनाकर बसाया था सन्नतिके भी सुनीथ नामक
 धार्मिक पुत्र हुआ ॥ ७६—७७ ॥ सुनीथके क्षेम्य नामक महा-
 यशस्वी पुत्र हुआ, क्षेमके केतुमान् नामक पुत्र हुआ, उसके
 सुकेतु नामक पुत्र हुआ ॥ ७८ ॥ सुकेतुका पुत्र धर्मकेतु नामक
 हुआ, धर्मकेतुके सत्यकेतु नामक महारथ पुत्र हुआ ॥ ७९ ॥

मारस्तु तत्सुतः ॥८०॥ सुकुमारस्य पुत्रस्तु धृष्टकेतुः सुधार्मिकः ।
 धृष्टकेतोस्तु दायादो वेणुहोत्रः प्रजेश्वरः ॥ ८१ ॥ वेणुहोत्रसुत-
 श्चापि भर्गो नाम प्रजेश्वरः । वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भृगुभूमिस्तु
 भार्गवात् ॥ ८२ ॥ एते त्वङ्गिरसः पुत्रा जाता वंशेऽथ भार्गवे ।
 ब्राह्मणाः क्षत्रियः वैश्यास्तथोः पुत्राः सहस्रशः । इत्येते काशयः
 प्रोक्ता नहुपस्य निबोध मे ॥ ८३ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि ।

एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

वैशम्पायन उवाच । उत्पन्नाः पितृकन्यायां विरजायां महौ-
 जसः । नहुपस्य तु दायादाः पडिन्द्रोपमतेजसः ॥ १ ॥ यतिर्ययातिः
 संयातिरायातिः पाञ्चिको भवः । स्रयातिः पष्ठस्तेषां वै ययातिः

सत्यकेतुके विभु नामक प्रजेश्वर पुत्र हुआ, विभुका आनर्त पुत्र
 हुआ उसका पुत्र सुकुमार हुआ ॥ ८० ॥ सुकुमारके धृष्टकेतु
 नामक अच्छा धार्मिक पुत्र हुआ, धृष्टकेतुका वेणुहोत्र नामक प्रजा
 धीश पुत्र हुआ ॥ ८१ ॥ वेणुहोत्रके भर्ग नामक प्रजाधीश पुत्र
 हुआ (अलर्कके पिता) वत्सके वत्सभूमि नामक दूसरा पुत्र हुआ
 (वत्सके भाई) भार्गवके भृगुभूमि नामक पुत्र हुआ था ॥ ८२ ॥
 यह (गालव) अंगिरसके पुत्र (विश्वामित्रके भार्गव होनेसे-)
 भार्गव वंशमें उत्पन्न हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यजातिके
 पुत्र हुए थे, उन वत्सभूमि और भृगुभूमिमें सहस्रों पुत्र हुए थे,
 इस प्रकार काशिवंशियोंका वर्णन कर दिया, अब तुम नहुपके
 वंशजोंको सुनो ॥ ८३ ॥ उनतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि—नहुपके (स्वभा नाम वाले वैश्यों
 के पूजनीय पितरोंकी विरजा नाम वाली कन्यामें इन्द्रकी समान
 तेज वाले छः महाबली पुत्र हुए थे ॥ १ ॥ (उनके नाम इस
 प्रकार हैं) यति ययाति संयाति आयाति पाञ्चिक—भव और

पार्थिवोऽभवत् । यतिर्ज्येष्ठस्तु तेषां वै ययातिस्तु ततः परम् । २।
 ककुत्स्थकन्यां गां नाम लेभे परमधार्मिकः । यतिस्तु मोक्षमास्थाय
 ब्रह्मभूतोऽभवन्मुनिः ॥ ३ ॥ तेषां ययातिः पञ्चानां विजित्य वसु
 धामिमाम् । देवयानीमुशनसः सुतां भार्यामवाप सः । शर्मिष्ठा-
 मासुरां चैव तनयां वृषपर्वणः ॥ ४ ॥ यदुं च तुवेसुं चैव देव
 यानी व्यजायत । द्रुषुं चानुं च पूरुञ्च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ५
 तस्मै शक्रो ददौ प्रीतो रथं परमभास्वरम् । असंगं काञ्चनं दिव्यं
 दिव्यैः परमवाजिभिः ॥ ६ ॥ युक्तं मनोजवैः शुभ्रैर्येन भार्या-
 मुवाह सः । स तेन रथसुरपेन पद्मरात्रेणाजयन्महीम् । ययाति
 युधि दुर्धर्षस्तथा देवान् सवासवान् ॥ ७ ॥ स रथः पौरवाणां
 तु सर्वेषामभवत्तदा । यावत्तु वसुनाप्नो वै कौरवाञ्जनमेजयत्

छटा सुयाति, इनमें ययाति राजा हुआ था, इनमें यति सबसे
 बड़ा था और ययाति उससे छेटा था ॥२॥ उसने परमधार्मिक
 ककुत्स्थकन्या गौसे विवाह किया था, यति तो मोक्षमार्गका
 आश्रय ले ब्रह्मनिष्ठ मुनि होगए थे ॥ ३ ॥ (ययातिकी दूसरी
 भार्याओंका वर्णन करते हैं, कि-) वाकी पाँचोंमेंसे ययातिने इस
 पृथ्वीको जीत कर शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी और वृषपर्वा
 राक्षसकी पुत्री शर्मिष्ठाको अपनी पत्नी बनाया था ॥ ४ ॥
 देवयानीने यदु और तुर्वसुको उत्पन्न किया और वृषपर्वाकी
 पुत्री शर्मिष्ठाने द्रुष और अनु तथा पूरुञ्चको उत्पन्न किया था ५
 इन्द्रने पसन्न होकर उसको अस्खलित गति वाला सुवर्णका
 ढला हुआ अति कान्तिमान दिव्य रथ दिया था, उसमें मनकी
 समान वेग वाले दिव्य घोड़े जुते हुए थे, उसमें बैठ कर वह
 अपनी स्त्रीको पर्यटन कराया करता था, युद्धमें दुर्धर्ष राजा
 ययातिने छः रातमें रथमें बैठ कर पृथ्वी और इन्द्रमहित देवता
 ओंको जीत लिया था ॥६-७॥ वह रथ सब पौरवोंके पास रहा

कुरोः पुत्रस्य राजेन्द्र राज्ञः पारिक्षितस्य ह । जगाम स रथो नाशं
शापाद् गार्ग्यस्य भीमतः ॥६॥ गार्ग्यस्य हि सुतं बालं स राजा
जनमेजयः । वाकशूरं हिंसयामास ब्रह्महत्यामनाप सः ॥ १० ॥
स लोहगन्धी राजर्षिः परिधावन्नितस्ततः । पौरजानपदैस्त्यक्तो
न लेभे शर्म कर्हिचित् ॥ ११ ॥ ततः स दुःखसन्तप्तो नालभत्
संविदं क्वचित् । इन्द्रोतः शौनकं राजा, शरणं प्रत्यपद्यत् ॥१२॥
याजयामास चेन्द्रोताः शौनको जनमेजयम् । अश्वमेधेन राजानं
पावनार्थं द्विजोत्तमः ॥ १३ ॥ स लोहगन्धो व्यनशत्, तस्यावसृथ-
मेत्य ह । स च दिव्यो रथो राजन् वसोरचेदिपेतस्तदा । दत्तः
शक्रेण तुष्टेन लेभे तस्माद् बृहद्रथः ॥ १४ ॥ बृहद्रथात् क्रमेणैव
गतो बार्हद्रथं नृपम् । ततो हत्वा जरासन्धं भीमस्तं रथमुत्तमम् १५

था, हे जनमेजय ! वसु नाम बाले कौरव तक वह रथ रहा था, =
हे राजेन्द्र ! कुहपुत्र राजा पारिक्षितके समय वह रथ बुद्धिमान्
गार्ग्यके शापसे जाता रहा था ॥ ६ ॥ उस राजा जनमेजयने
वाकशूर (कठोर वाणी बोलने वाले) गालवके बालक पुत्रको
मार डाला था, इसलिये उसे ब्रह्महत्या लग गई थी ॥ १० ॥
उसको पुरवासी और ग्रामवासियोंने (जाति) बाह्य की समान
त्याग दिया था, उस समय वह राजा चारों ओर टकराने लगा
और उसे कहीं शान्ति नहीं मिली ॥ ११ ॥ जब उसे कहीं
स्वस्थ होनेका उपाय नहीं मालूम हुआ, तब वह दुःखसे संतप्त
हुआ इन्द्रोत राजा जनमेजय शौनक मुनिकी शरणमें पहुँचा १२
तब ब्राह्मणश्रेष्ठ शौनकने इन्द्रोत जनमेजयको पवित्र करनेके लिये
उसको अश्वमेध यज्ञ करवाया था ॥ १३ ॥ उस यज्ञका अव-
भूथ स्नान होने पर उसका लोहगन्ध (जातिबाह्य होनेका पातक
दूर होगया, तदनन्तर इन्द्रने प्रसन्न होकर वह रथ वसु चेदि-
पतिसे लेकर बृहद्रथको देदिया था ॥ १४ ॥ वह रथ बृहद्रथसे

मददौ वासुदेवाय प्रीत्या कौरवनन्दनः । सप्तद्वीपां ययातिस्तु
जित्वा पृथ्वीं ससागराम् ॥१६॥ व्यभजत् पंचभां राजन् पुत्राणां
नाहुपस्तदा । दिशि दक्षिणपूर्वस्यां तुर्वसुं मतिमानृषः ॥ १७ ॥
प्रतीच्यामुत्तरस्यां च द्रुह्यं चानुं च नाहुपः दिशि पूर्वोत्तरस्यां
चै यदुं ज्येष्ठं न्ययोजयत् ॥ १८ ॥ मध्ये पूरुं च राजानमभ्य-
पिचत नाहुपः । तैरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपत्तना ॥१९॥
यथाप्रदेशमद्यापि धर्मेण प्रतिपान्यते । प्रजास्तेषां पुरस्तात्तु
वक्ष्यामि नृपसत्तम ॥२०॥ धनुर्न्यस्य पृषत्कांश्च पंचभिः पुरुष-
र्षभैः । जरावान भवद्राजाभारमावेश्म बन्धुषु । निःक्षिप्तशस्त्रः
पृथिवीं निरीक्ष्य पृथिवीपतिः ॥२१॥ प्रीतिमानभवद्राजा ययाति-
रपराजितः । एवं विभज्य पृथिवीं ययातिर्षुदुपब्रवीत् ॥ २२ ॥

क्रमानुसार बाहेद्रथको मिलमथा, तदनन्तर कौरवनन्दन भीमसेनने
जरासन्धको मार बह रथ प्रीतिके कारण वासुदेवको दे दिया था
नहुपपुत्र राजा ययातिने समुद्रतककी सप्तद्वीपा पृथ्वीको जीतकर
उसको अपने पुत्रोंको पाँच भागमें बाँट कर देदिया था, नहुप-
पुत्र बुद्धिमान् ययातिने दक्षिणपूर्वदिशा (अग्निकोणमें) तुर्वसुको,
प्रतीचीमें द्रुह्य और उत्तरमें अनुको तथा पूर्वोत्तर (ईशानकोण)
दिशामें चड्डे यदुको नियुक्त कर दिया था ॥ १५ ॥ १८ ॥ और
मध्यदेशमें राजा पूरुका अभिषेक कर दिया था, वे आज कल
भी सात द्वीप और नगरवाली सारी पृथिवीका प्रदेशानुसार
उसी प्रकार धर्मानुसार पालन कर रहे हैं, हे नृपसत्तम ! अब मैं
उनकी सन्तानोंको कहता हूँ ॥ १९ ॥ २० ॥ पाँच पुरुषश्रेष्ठ
पुत्रोंको धनुष और बाण समर्पण करके राजा ययाति वृद्ध
होगया फिर अपने आप शस्त्रको त्याग पृथ्वीकी ओर देख
कर प्रसन्न होने लगा, इस प्रकार पृथ्वीका विभाग करके
अपराजित ययाति यदुसे कहने लगा, कि-१२१।२२। हे पुत्र ! तू

जरां मे मतिगृहीष्व पुत्र कृत्यान्तरेण धौ । तरुणस्तव रूपेण चरेयं
 पृथिवीमिमाम् । जरां त्वयि समाधाय तं यदुः प्रत्युवाच ह २३
 अनिर्दिष्टा मया भिक्षा ब्राह्मणस्य प्रतिश्रुता । अनपाकृत्य तां
 राजन्न गृहीष्यामि ते जराम् ॥२४॥ जूरायां वहवो दोषाः पान-
 भोजनकारिताः । तस्माज्जरां न ते राजन् गृहीतुमद्भुत्सहे २५
 सन्ति ते वहवः पुत्रा मत्तः प्रियतरा नृप । प्रतिगृहीतुं धर्मज्ञ पुत्र-
 मन्यं वृणोष्व वै ॥ २६ ॥ स एवमुक्तो यदुना राजा कोपसम-
 न्वितः । उवाच वदतां श्रेष्ठो ययातिर्गदयन् सुतम् ॥ २७ ॥ क
 आश्रयस्तवान्योऽस्ति को वा धर्मो विधीयते । मामनादृत्य दुर्बुद्धे

कृत्यान्तरके द्वारा मेरे बुढ़ापेको ग्रहण कर ले, तब मैं तुझसे
 बुढ़ापेका आरोप करके तेरे रूपसे तरुण होकर इस पृथ्वी पर
 विचरण करूंगा, उससे यदुने कहा, कि-॥ २३ ॥-हे राजन् !
 मैंने एक ब्राह्मणको अनिर्दिष्ट भिक्षा देना स्वीकार करली है
 अर्थात् ब्राह्मणने (किसी वस्तुका नाम न लेकर) मुझसे भिक्षा
 माँगी थी मैंने उसे देना स्वीकार कर लिया था अतः इस ऋणसे
 छूटे बिना मैं आपके बुढ़ापेको स्वीकार नहीं कर सकता ॥२४॥
 और हे राजन् ! बुढ़ापेमें पीने और खानेके बहुतसे दोष भरे
 हुए हैं, इस लिये हे राजन् ! मैं आपके बुढ़ापेको ग्रहण करना
 नहीं चाहता २५ हे राजन् ! तुम्हारे तो मुझसे भी अधिक
 प्यारे और भी पुत्र हैं अतः हे धर्मज्ञ ! आप बुढ़ापेको ग्रहण
 करनेके लिये दूसरे पुत्रसे कहिये २६ यदुकी इस बातको सुन
 कर वक्ताओंमें श्रेष्ठ ययाति क्रोधमें भर कर उसकी निन्दा करता
 हुआ कहने लगा, कि-२७ हे दुर्बुद्धे ! जब मैं तेरा गुरु हूँ तो
 मेरा अनादर करके तू किसका आश्रय लेना चाहता है अर्थात्
 किसकी इच्छाको पूर्ण करना चाहता है और (पिताकी आज्ञा
 का उल्लंघन कर) तू कौनसे धर्मका पालन कर रहा है (यह

यदहं तव देशिकः ॥ २८ ॥ एवमुक्त्वा यदुं तात शशापैनं स
 मन्धुमान् । अराज्या ते प्रजा मूढ भवित्रीति नराधम ॥ २९ ॥
 स तुर्वसुं च द्रुह्युं चाप्यनुञ्च भरतर्षभ । एवमेवात्रबोद्धि राजा
 मत्याख्यातश्च तैरपि ॥ ३० ॥ शशाप . तानतिक्रुद्धो ययातिरप-
 राजितः । यथा.ते कथितं पूर्वं मया राजर्षिसत्तप ॥ ३१ ॥ एवं
 शप्त्वा सुतान् सर्वान् चतुरः पुरुपूर्वजान् । तदेव वचनं राजा
 पूरूप्याह भार्गवः ॥ ३२ ॥ तरुणस्तव रूपेण चरेयं पृथिवी-
 पिमाम् । जरां त्वयि सप्ताधाय त्वं पुरो यदि मन्यसे ॥ ३३ ॥
 स जरां प्रतिजग्राह पितुः पुरुः प्रतापवान् । ययातिरपि रूपेण
 पुरोः पर्यचरन् महीम् ॥ ३४ ॥ स मार्गमाणः कामानामन्तं भरत-
 सत्तम । विश्वाच्या सहितो रेमे वने चैत्ररथे प्रभुः ॥ ३५ ॥ यदा

तो वता) ॥ २८ ॥ यदुसे इस प्रकार कहकर क्रोधमें भरेहुए
 राजा ययातिने यदुको शाप दिया, कि-हे मूढ़ ! हे नराधम !
 तेरी प्रजा राजा नहीं होगी ॥ २९ ॥ हे भरतर्षभ ! उस राजाने
 तुर्वसु द्रुह्यु और अनुसे भी इसी प्रकार कहा, परन्तु ज्ञानोंने भी
 निषेध कर दिया ॥ ३० ॥ हे राजर्षियोंमें श्रेष्ठ ! मैंने तुझसे
 पहिले जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार उसने बड़े क्रोधमें भर
 वनको भी शाप देदिया था ॥ ३१ ॥ इस प्रकार पुरुके चार
 बड़े-भाइयोंको शाप देकर हे भारत ! राजाने यही बात पुरुसे
 भी कही ॥ ३२ ॥ कि-हे पुरु ! यदि तू स्वीकार करे तो मैं अपना
 बुढ़ापण तेरे अर्पण करके तेरे रूपसे तरुण होकर इस पृथिवी
 पर विचरण करना चाहता हूँ ॥ ३३ ॥ प्रतापवान् पुरुने पिता
 के बुढ़ापेको ग्रहण कर लिया, फिर हे भरतसत्तम ! ययाति
 पुरुके रूपसे पृथ्वी पर विचरण करने लगा ॥ ३४ ॥ वह प्रभु
 कामनाओंके पारको खोजता हुआ विश्वाची अप्सराके साथ
 चैत्ररथ वनमें रमण करने लगा ॥ ३५ ॥ जब वह राजा कामना-

नितृष्णः कामानां भोगेषु स नराधिपः । तदा पूरोः सकाशाद्द्वै
 स्वां जरां प्रत्यपद्यत ॥ ३६ ॥ तत्र गाथा महाराज शृणु गीता
 ययातिना । याभिः प्रत्याहरेत् कामान् सर्वतोऽगानि कूर्मवत् ३७
 न जातु कामः कामोनामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मव
 भूय एवाभिवर्धते ॥ ३८ ॥ यत् पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः
 स्त्रियः । नालमेरुस्य तत्सर्वमिति पश्यन्न मुह्यति ॥ ३९ ॥ यदा
 भावं न कुर्वते सर्वभूतेष्वपापकम् । कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म
 संपद्यते तदा ॥ ४० ॥ यदाऽप्येभ्यो न विभ्येति यदा चास्मान्न
 विभ्यति । यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ४१ ॥ या
 दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । योऽसौ प्राणान्तिको
 रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥ ४२ ॥ जीर्यन्ति जीर्यतः केशा

ओंको भोगते २ वितृष्ण होगया तव उसने पुरुसे अपना बुढ़ापा
 लौटा लिया, ॥ ३६ ॥ हे महाराज ! उस समय ययातिने जो
 गाथाएँ गाई थीं उनको सुनो, उनको सुनकर मनुष्यको अपनी
 कामानाओंको कछुपके अङ्ग सकोड़नेकी समान सकोड़ लेना
 चाहिये ॥ ३७ ॥ भोगनेसे कामनाओंकी शांति कभी नहीं हो
 सकती वह हवि पड़ने पर अग्निकी समान बढ़ती ही रहती हैं ३८
 पृथिवीमें जो सुवर्ण धान्य जौ पशु और स्त्रियें हैं, वह एक
 शांतिके बराबर नहीं होसकती, यह विचार कर शांति धारण
 करे ॥ ३९ ॥ मनुष्य जब सब प्राणियोंसे मनसा वाचा कर्मणा
 पापमय विचार नहीं रखता है, तब वह ब्रह्मस्वरूप होजाता
 है ॥ ४० ॥ जब यह दूसरोंसे नहीं डरता है और जब दूसरा
 इससे नहीं डरता है और जब यह न इच्छा करता है और
 न द्वेष करता है, तब यह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ॥ ४१ ॥
 पुरुष जिसको कठिनतासे त्याग सकते हैं और जो पुरुषके जीर्ण
 होने पर भी जीर्ण नहीं होती है और जो प्राणान्ता करने वाला

दन्तः जीर्यन्ति जीर्यतः । जीविनाशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न
जीर्यति ॥४३॥ यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् ।
तृष्णान्तयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कलाम् ॥ ४४ ॥ एवमुक्त्वा
स राजर्षिः सदारः प्रादिशद् वनम् । कालेन महता चापि चचार
विपुलं तपः ॥ ४५ ॥ भृगुतुङ्गे तपस्तप्त्वा तपसोऽन्ते महातपाः ।
अनशन् देहमुत्सृज्य सदारः स्वर्गमाप्तवान् ॥ ४६ ॥ तस्य वंशे
महाराज पंच राजर्षिसत्तमाः । यैर्व्याप्ता पृथिवी सर्वा सूर्यस्येव
गभस्तिभिः ॥ ४७ ॥ यदोस्तु शृणु राजर्षेर्वंशं राजर्षिसत्कृतम् ।
येत्र नारायणो जज्ञे हरिर्विष्णुकुलोद्भवः ॥ ४८ ॥ धन्यः प्रजा-

रोग है उस तृष्णाको त्यागने वालेको ही सुख मिलता है ४२
बुद्धे होते हुए मनुष्यके केश पक जाते हैं और वृद्ध होते हुए
मनुष्यके दाँत भी जीर्ण होजाते हैं, परन्तु जीनेकी और धनकी
आशा मनुष्यके जीर्ण होने पर जीर्ण भी नहीं होती है ४३ संसार
में जो कामसुख मिलता है और जो बड़ा भारी दिव्य सुख मिल
सकता है ये दोनों सुख तृष्णाके क्षयके सुखकी सोलहवीं कला
के बराबर भी नहीं हैं ॥ ४४ ॥ इस प्रकार कह कर वह राजर्षि
अपनी स्त्रियोंको साथ ले वनको चलागया और उसने बहुत
समय तरु बड़ा भारी तप किया था ॥ ४५ ॥ उस महातेजस्वीने
भृगुतुङ्ग पर्वत पर तप कर तपके अन्तमें निसद्वार रह कर अपने
देहको त्याग दिया था, इस कारण उसको और उसकी स्त्रीको
स्वर्ग मिला था ॥ ४६ ॥ जैसे सूर्यकी किरणोंसे पृथ्वी व्याप्त
रहती है, इसी प्रकार हे महाराज ! उसके वंशके पाँच राजसत्तम
मनुष्योंसे पृथिवी व्याप्त होरही थी ॥ ४७ ॥ वृष्णिकुलको उठाने
वाले नारायण जिस कुलमें उत्पन्न हुए है उस राजर्षि यदुके राज-
र्षियोंसे सत्कृत वंशको सुनो ॥ ४८ ॥ हे राजन् ! मनुष्य ययातिके

वानायुष्मान् कीर्तिमांश्च भवेन्नरः । ययातेश्वरितं पुण्यं पठन्
शृण्वन् नराधिप ॥ ४६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

ययातिचरिते त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

जनमेजय उवाच । पुरोर्वंशमहं ब्रह्मन् श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥
द्रुहोश्चानोर्यदोरचैवं तुर्वसोरच पृथक् पृथक् ॥ १ ॥ वृष्णिवंश-
प्रमङ्गेन स्वं वंशं पूर्वमेव तु विस्तरेणानुपूर्व्या च तद्भवान् वक्तु-
मर्हति ॥२॥ वैशम्पायन उवाच । शृणु पुरोर्महाराज वंशमुत्तम-
पौरुषम् । विस्तरेणानुपूर्व्या च यत्र जातोऽसि पार्थिव ॥ ३ ॥
हन्त ते कीर्तयिष्यामि पुरोर्वंशमनुत्तमम् । द्रुहोश्चानोर्यदोरचैव
तुर्वासोरच नराधिप ॥ ४ ॥ पुरोः पुत्रो महावीर्यो राजाऽसी-
उजनमेजयः । प्रचिन्वन्स्तु सुतस्तस्य यः प्राचीमजयद् दिशम् ५
प्रचिन्वतः प्रवीरोऽभून्मनस्युस्तस्य चात्मजः । राजा चाभयदो

पवित्र चरित्रको पढ़ कर वा सुन कर धन्य होजाता है तथा आयु-
ष्मान् और कीर्तिमान् होजाता है४६तीसवाँ अध्याय समाप्त ३०

जनमेजयने कहा, कि-हे ब्रह्मन् ! मैं वृष्णिवंशके प्रसंगवश
पुरुके द्रुहोके अनुके यदुके और तुर्वसुके वंशको पृथक् २ सुनना
चाहता हूँ परन्तु आप पहिले इस समय विस्तारपूर्वक क्रमशः मेरे
वंशका वर्णन करिये ॥१॥२॥ वैशंपायनजीने कहा, कि-हे महा-
राज ! तुम जिस वंशमें उत्पन्न हुए हो उस पुरुके उत्तम पुरुषों
वाले वंशको तुम विस्तारपूर्वक क्रमशः सुनो ॥ ३ ॥ हे नरा-
धिप ! अब मैं तुमसे पुरुके द्रुहोके अनुके और तुर्वसुके परम-
श्रेष्ठ कुलका वर्णन करता हूँ ॥ ४ ॥ पुरुका पुत्र महावीर्य राजा
जनमेजय हुआ, उसका पुत्र प्रचिन्वान् हुआ उसने पूर्ण दिशा
को जीत लिया था ॥ ५ ॥ प्रचिन्वान्के प्रवीर नामक पुत्र हुआ
उसका पुत्र मनस्यु हुआ और मनस्युका अभयद नामक राजा

नाम मनस्योरभवन् सुता ॥ ६ ॥ तथैवावयदस्यासीत् सुगन्वा तु
 महीपतिः । सुधन्वनो बहुगवः शम्यातिस्तस्य चात्मजः ॥ ७ ॥
 शम्यातेस्तु रहस्याती रौद्राश्वस्तस्य चात्मजः । रौद्राश्वस्य
 घृताच्यां वै दशाप्सरसि सुनवः ॥ ऋचेयुः प्रथमस्तेषां कृकण्येयु-
 स्तथैव च । कक्षेयुः स्थण्डिलेयुश्च सन्नतेयुस्तथैव च ६ दशार्ण्येयु-
 र्जलेयुश्च स्थलेयुश्च महायशाः । धनेयुश्च वनेयुश्च पुत्रिकाश्च दश-
 स्त्रियः १० रुद्रा भद्रा च शूद्रा च मलदा मलहा तथा । खलदा
 चैव राजेन्द्र नलदा सुरसापि च । तथा गो चपला तु स्त्री रत्नकूटा
 च तादश ॥ ११ ॥ ऋषिर्जातोऽत्रिंशो तु तासां भर्ता प्रभा-
 करः । रुद्रायां जनयामास सुतं सोमं यशस्विनम् ॥ १२ ॥ स्वर्भानुना
 हते सूर्ये पतमाने दिवो महीम् । तपोऽभिभूते लोके च प्रभा येन
 प्रकल्पिता ॥ १३ ॥ स्वस्ति तेऽस्विति चोक्तो वै पतमानो दिवा-

पुत्र हुआ । ६ । इसी प्रकार अण्वदके सुगन्वा नामक राजा पुत्र
 हुआ, सुधन्वाके बहुगव हुआ, उसका पुत्र शम्याति हुआ । ७ ।
 शम्यातिके रहस्याति हुआ उसका पुत्र रौद्राश्व हुआ, रौद्राश्वके
 घृताची नाम वाली अप्सरामें दश पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥ ८ ॥
 उनमें पहिला ऋचेयु था (बाकी-) कृकण्येयु कक्षेयु स्थण्डिलेयु
 सन्नतेयु दशार्ण्येयु जलेयु स्थलेयु महायशस्वी-धनेयु और वनेयु
 थे और उसकी दश पुत्रियें पुत्रिका धर्म वाली थीं । ९ १० ।
 रुद्रा शूद्रा भद्रा मलदा मलहा खलदा नलदा सुरसा गो तथा
 चपला ये दश पुत्रियें थीं, इन्होंने उर्गशी आदि स्त्रीरत्नोंको हेच
 वना दिया था ११ मभानान् और कुलीन अत्रिऋषि इनके स्वामी
 थे, इन्होंने रुद्रामें यशस्वी सोम नाम वाले पुत्रको उत्पन्न किया
 था १२ जब सूर्य राहुसे पीड़ित होकर स्वर्गसे पृथ्वी पर गिरने
 लगा था और संसारमें अन्धकारसे जागया था, तब इन्होंने प्रभा
 की कल्पनाकी थी ॥ १३ ॥ सूर्य जिस समय गिर रहा था,

करः । वचनात्तस्य विपर्षे न पपात दिवो महोम् ॥ १४ ॥ अत्रि-
 श्रेष्ठानि गोत्राणि यश्चकार महातपाः । यज्ञेष्वत्रेर्धनं चैव सुरै-
 र्यस्य प्रवर्तितम् ॥ १५ ॥ स ताम्बु जनयामास पुत्रिकासु सनाम-
 कान् । दश पुत्रान् महात्मा स तपस्युग्रे रतान् सदा ॥ १६ ॥ ते
 तु गोत्रकरा राजन्नृपयो वेदपारगाः । स्वस्त्यात्रेया इति ख्याता
 किं त्वत्रिं धनवर्जिताः ॥ १७ ॥ कत्तेयोस्तनयाश्चासन् त्रय एव
 महारथाः । सभानरश्चानुपरच परमन्थुस्तथैव च ॥ १८ ॥
 सभानरस्य पुत्रस्तु विद्वान् कालानलो नृपः । कालानस्य धर्मज्ञः
 सृञ्जयो नाम वै सुतः ॥ १९ ॥ सृञ्जयस्याभवत् पुत्रो वीरो राजा
 पुरञ्जयः । जनमेजयो महाराज पुरञ्जयसुतोऽभवत् ॥ २० ॥
 जनमेजयस्य राजर्षेर्महाशालोऽभवत्सुतः । वेदेषु सपरिज्ञातः प्रति-

उससमय ऋषिने "स्वस्ति हो" कहा था तब उन विपर्षिके
 कहने पर सूर्य स्वर्गसे पृथिवी पर नहीं गिरा था ॥ १४ ॥
 उन महातपस्वीने अत्रिगोत्रको सब गोत्रोंमें श्रेष्ठ बना दिया था
 और देवताओंने यज्ञमें अत्रिके निमित्त धन नियुक्त कर दिया
 था ॥ १५ ॥ उन महात्माने उन पुत्रिकाधर्मवाली स्त्रियोंमें उन
 के ही नाम वाले दश पुत्रोंको उत्पन्न किया था, वे सदा उग्र
 तप करते रहते थे ॥ १६ ॥ हे राजन् ! वे गोत्रप्रवर्तक और वेद
 के पारगामी ऋषि स्वस्त्यात्रेय कहलाते हैं, परन्तु उनको अत्रिका
 धन नहीं मिला था ॥ १७ ॥ कत्तेयुके सभानर चानुप और पर-
 मंथु नामक तीन महारथी पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥ १८ ॥ सभानर
 के कालानल नामक विद्वान् और राजा पुत्र हुआ और काला-
 नलके सृञ्जय नाम वाला धर्मज्ञ पुत्र हुआ ॥ १९ ॥ सृञ्जयका
 वीर पुत्र राजा पुरञ्जय हुआ और हे महाराज ! पुरञ्जयके जन-
 मेजय नामक सुत हुआ ॥ २० ॥ राजर्षि जनमेजयके महाशाल
 नामक पुत्र हुआ, वह वेदोंका ज्ञाता था और उसका यश पृथ्वी

पुत्रपशा सुवि ॥२१॥ महामना नाम सुतो महाशालस्य धार्मिकः
 जज्ञे वीरः सुरगणैः पूजितः सुमहायशाः ॥ २२ ॥ महामनास्तु
 पुत्रो द्वौ जनयामास भारत । उशीनरं च धर्मज्ञं तितिष्ठं च महा-
 बलम् ॥२३॥ उशीनरस्य पत्न्यस्तु पञ्च राजपिंशजाः । नृगा
 कृपी नवा दर्वा पञ्चमी च वृषद्वती २४-॥ उशीनरस्य पुत्रास्तु
 पञ्च तामु कुलोद्बहागतपसा वै सुमहता जाता वृद्धस्य भारत २५
 नृगायास्तु नृगः पुत्रः कृम्यां कृमि रजायत । नवायास्तु नवः
 पुत्रो दर्वायाः सुव्रतोऽभवत् ॥२६॥ वृषद्वत्यास्तु संजज्ञे शिविरौ
 शीनरो नृगः । शिवेस्तु शिवयस्तात योधेयास्तु नृगस्य ॥२७॥
 नवस्य नवराष्ट्रन्तु कृमेस्तु कृमिला पुरी । सुव्रतस्य तथांशु
 शिविपुत्रान्निबोध मे ॥२८॥ शिवेश्च पुत्राश्चत्वारो वीराम्बलोक-

में प्रतिष्ठित होगया था ॥२१॥ महाशालके महामना नाम बालक
 धार्मिक पुत्र हुआ, उस महायशस्वी वीरकी देवता पूजा करते
 थे ॥ २२ ॥ हे भारत ! महामनाने धर्मज्ञ उशीनर और महाबली
 तितिष्ठ नाम बालके (इस प्रकार) दो पुत्रोंको उत्पन्न किया
 था ॥२३॥ उशीनरके राजपिंशोंके वंशमें उत्पन्न हुई नृगा कृपी
 नवा दर्वा और पाँचवीं वृषद्वती नामकी इस प्रकार पाँच पत्नियों
 थीं ॥ २४ ॥ हे भारत ! वृद्ध होने पर बड़े भारी तपके प्रभावसे
 उनमें कुलको उठाने वाले पाँच पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥ २५ ॥
 नृगाका पुत्र नृग हुआ कृमिसे कृमि उत्पन्न हुआ नवाका पुत्र
 नव हुआ और दर्वाके सुव्रत नामक पुत्र हुआ ॥ २६ ॥ वृषद्वती
 में उशीनरका पुत्र शिवि उत्पन्न हुआ शिविके देश शिवि कह-
 लाते हैं और हे तान ! नृगके देश योधेय कहलाते हैं ॥ २७ ॥
 नवका राज्य नवराष्ट्र कहलाता है, कृमिकी कृमिलापुरी प्रसिद्ध
 है और सुव्रतकी अम्बला पुरी प्रसिद्ध है, अतः तुम शिविके
 पुत्रोंको सुनों ॥ २८ ॥ शिविके वृषदर्भ सुवीर मद्रक और कैकय

विश्रुताः । वृषदर्भः सुवीरश्च मद्रुः कैकयस्तथा ॥ २६ ॥ तेषां
 जनपदाः स्त्रीणाः कैकया मद्रुस्तथा । वृषदर्भास्तुवीराश्च तिति-
 क्षोस्तु प्रजाः शृणु ॥ ३० ॥ तैतित्क्षत्रोऽभवद्राजा पूर्वस्थां दिशि
 भागत् । उपद्रथो महाबाहुस्तस्य फेनः सुतोऽभवत् ॥ ३१ ॥ फेनात्तु
 सुतया जज्ञे सुतः सुतपत्सो बलिः । जानो मानुषयोर्नो तु स राजा
 कांचनेपुषिः ॥ ३२ ॥ महायोगी स तु बलिर्वभूव नृपतिः पुग ।
 पुनानुत्पादयामास पंच वंशकरान् भुवि ॥ ३३ ॥ अद्भुतः प्रथमतो
 जज्ञे वद्भुः सुभ्रस्तथैव च । पुण्ड्रः कर्लिगरश्च तथा बालेयं क्षत्र-
 मुच्यते ॥ ३४ ॥ बालेया ब्राह्मणश्चैव तस्य वंशकरा भुवि ।
 बलेस्तु ब्रह्मणा दत्ता वराः भीतेन भारत ॥ ३५ ॥ महायोगित्व-
 मायुरश्च रुद्रस्य परिमाणतः । संग्रामे वाप्यजेयत्वं धर्मं चैव
 प्रयानता ॥ ३६ ॥ त्रैलोक्यदर्शनं चैव प्राधान्यं प्रसवे तथा । बले

नाम बाले त्रिलोकीमें प्रसिद्ध चार वीर पुत्र थे ॥ २६ ॥
 उनके कैकय मद्रु वृषदर्भ और सुवीर नामक बड़े विस्तृत देश
 हैं अब तुम त्रिलोकी प्रजाको सुनो ॥ ३० ॥ हे भारत ! पूर्व-
 दिशामें त्रिलोकीका पुत्र महारथी राजा उपद्रथ हुआ था उसका
 सुत फेन हुआ ॥ ३१ ॥ फेनके सुतया हुआ सुतयाका पुत्र बलि
 हुआ, वह सुवर्णके तूणीर बाला राजा बलि मनुष्य योनिमें
 उत्पन्न हुआ था (पूर्वजन्ममें यह बलि दैत्य था) ॥ ३२ ॥ वह
 राजा बलि महायोगी हुआ था उसने वंशप्रवर्तक पाँच पुत्रोंको
 उत्पन्न किया था ॥ ३३ ॥ पहिले अंग हुआ फिर वद्भु सुभ्र
 पुण्ड्र और कर्लिग उत्पन्न हुए यह बालेय क्षत्र कहलाते हैं ३४
 और उसके कुनहो प्रसिद्ध करने वाले ब्राह्मण बालेय नामसे
 पृथ्वीमें प्रसिद्ध हैं, हे भारत ! ब्रह्माजीने मसन्न होकर बलिको
 महायोगीपन रुद्रपर्यन्तकी आयु, संग्राममें अजेयता और धर्म-
 प्रधानता त्रिलोकीकी देवनेही शक्ति, बलित्व नाम वाली सिद्धि

चाप्रतिपत्वं वै धर्मतत्त्वार्थदर्शनम् ॥ ३७ ॥ चतुरो नियतान् वर्णान्
 त्वं च स्थापयिता भुवि । इत्युक्तो विभुना राजा बलिः शान्ति
 परां यया ॥ ३८ ॥ तस्य ते जनयाः सर्वे क्षेत्रजा मुनिपुङ्गवाः ।
 संभूता दीर्घतपसो सुदेष्णाया महौजसः ॥ ३९ ॥ बलिस्तानभि-
 पिच्येह पंचपुत्रानकल्पयान् । कृतार्थः सोपि योगात्मा योगमाश्रित्य
 सं प्रभुः ॥ ४० ॥ अधृष्यः सर्वभूतानां कालापेक्षी चरन्नपि ।
 कालेन महता राजन् स्वं च स्थानमुपागमत् ॥ ४१ ॥ तेषां जन-
 पदाः पंच अद्वा वद्वाः समुल्लाकाः । कलिगाः पुण्ड्रकारचैव मत्ता-
 स्त्वङ्गस्य मे शृणु ॥ ४२ ॥ अंगपुत्रो महानासीद्राजेन्द्रो दधि-
 वाहनः । दधिवाहनपुत्रस्तु राजा दिविरथोऽभवत् ॥ ४३ ॥ पुत्रो
 दिविरथस्यासीच्छक्रतुल्यपराक्रमः । विद्वान् धर्मरथो नाम तस्य

में प्रधानता और अप्रतिम बल और धर्मके सूक्ष्म तत्त्वोंका अब
 लोकन् आदि वर दिये थे ॥ ३५ ॥ ३७ ॥ प्रभु ब्रह्माग्नीने जब
 वससे कहा, कि-तुम पृथ्वीमें चारों वर्णोंको नियममें रख कर
 स्थापित करोगे तब बलि परम शांतिको प्राप्त हुआ, ३८ (बलि
 ऊँचरोता था इस कारण) उसके सब पुत्र क्षेत्रज थे और वे दीर्घ-
 तपा ऋषिसे सुदेष्णामें उत्पन्न हुए थे और बड़े भारी ओज वाले
 मुनिपुंगव थे बलि उन निष्पाप पौत्र पुत्रोंका अभिप्रेक करके
 कृतार्थ हो गया फिर वह योगस्वरूप योगात्मा प्रभु योगका
 आश्रय लेकर सब भूतोंसे अधृष्य होकर अपने अन्तिम समयकी
 बात देखता हुआ विचरण करने लगा और हे राजन् ! बहुत
 समयके अनन्तर अपने स्थान (सुतललोक) को चला
 गया ॥ ३९-४० ॥ उनके अंग वङ्ग समूहक कलिगा और पुण्ड्रक
 देश प्रसिद्ध हैं अब तुम अद्वा वी सन्तानको सुनो ॥ ४२ ॥ अद्वा
 का पुत्र दधिवाहन राजेन्द्र हुआ, दधिवाहनका पुत्र राजा दिविरथ
 हुआ ॥ ४३ ॥ दिविरथका पुत्र इन्द्रकी समान पराक्रमी था उस

चित्ररथः सुतः ॥ ४४ ॥ तेन चित्ररथेनाथ तदा विष्णुपदे गिरौ।
 यजता सह शक्रेण सोमः पीतो महात्मना ॥ ४५ ॥ अथ चित्र-
 रथस्यापि पुत्रो दशरथोऽभवत् । लोमपाद इति ख्यातो यस्य
 शान्ता सुताऽभवत् ॥ ४६ ॥ तस्य दाशरथिर्वीरश्चतुरंगो महा-
 यशाः । ऋष्यशृंगप्रसादेन जज्ञे कुलविवर्धनः ॥ ४७ ॥ चतु-
 रंगस्य पुत्रस्तु पृथुलान्त इति स्मृतः । पृथुलान्तसुतो राजा चम्पो
 नाम महायशाः ॥ ४८ ॥ चम्पस्य तु पुरी चम्पा या मालिन्य-
 भवत्पुरा । पूर्णभद्रप्रसादेन हर्यगोऽस्य सुतोऽभवत् ॥ ४९ ॥ ततो
 विभाण्डकिस्तस्य वारणं शक्रवारणम् । अचतारयामास महीं
 मन्त्रैर्वाहनमुत्तमम् ॥ ५० ॥ हर्यगस्य तु दायादो राजा भद्ररथः
 स्मृतः । पुत्रो भद्ररथस्यासीद् बृहत्कर्मा मजेश्वरः ॥ ५१ ॥ बृह-
 द्दर्भः सुतस्तस्य तस्माज्ज्ञे बृहन्मनाः । बृहन्मनास्तु राजेन्द्र जनया-

विद्वान्का नाम धर्मरथ था उसका पुत्र चित्ररथ हुआ ॥ ४४ ॥
 उस महात्मा चित्ररथने विष्णुपद पर्वत पर यज्ञ करके इन्द्रके
 साथ सोमपान किया था ॥ ४५ ॥ चित्ररथके भी दशरथ नामक
 पुत्र हुआ वह लोमपाद नामसे भी प्रसिद्ध था उसकी पुत्रीका
 नाम शान्ता था ॥ ४६ ॥ उस दशरथका पुत्र महायशस्वी चतुरङ्ग
 हुआ वह कुलको बढ़ाने वाला ऋष्यशृङ्गके प्रसादसे उत्पन्न
 हुआ था ॥ ४७ ॥ चतुरङ्गका पुत्र पृथुलान्त नामसे प्रसिद्ध है,
 पृथुलान्तके चम्प नामक महायशस्वी पुत्र हुआ ॥ ४८ ॥ चम्पकी
 चम्पा नामकी पुरी थी, वह पहिले मालिनी नामसे प्रसिद्ध थी,
 और पूर्णभंग मुनिके प्रसादसे उनके हर्यङ्ग नामक पुत्र हुआ
 था ॥ ४९ ॥ विभाण्डक मुनिके पुत्र ऋष्यशृङ्गने जलमें विचरण
 करने वाले इन्द्रवाहन ऐरावतको मंत्र पढ़ कर (हर्यगके यहाँ)
 बुलाया था ५० । हर्यङ्गके भद्रस्थ नामक पुत्र हुआ; भद्ररथके बृह-
 त्कर्मा नामक राजापति पुत्र हुआ ५१ उसके बृहद्दर्भ नामक पुत्र

मास वै सुतम् ॥ ५२ ॥ नाम्ना जयद्रथं नाम यस्माद्दे दृढरथो
 नृपः । आसीद् दृढरथस्यापि विश्वजिज्जनमेजय ॥५३॥ दाया-
 दस्तस्य कर्णस्तु विकर्णस्तस्य चात्मजः । तस्य पुत्रशतं त्वासी-
 दज्ञानां कुलवर्धनम् । बृहद्दर्भसुतो यस्तु राजा नाम्ना बृहन्मनाः५४
 तस्य पत्नीद्वयं चासीच्चैद्यस्यैते सुते शुभे । यशोदेवी च सत्या
 च ताभ्यां वंशस्तु भिद्यते ॥ ५५ ॥ जयद्रथस्तु राजेन्द्र यशोदेव्या
 व्यजायत । ब्रह्मन्त्रोत्तरः सत्यां विजयो नाम विश्रुतः ॥५६॥
 विजयस्य धृतिः पुत्रस्तस्य पुत्रो धृतव्रतः । धृतव्रतस्य पुत्रस्तु
 सत्यकर्मा महायशाः ॥५७॥ सत्यकर्मसुतश्चापि सूतस्त्वधिरथस्तु
 वै । यः कर्णं प्रतिजग्राह ततः कर्णस्तु सूतजः ॥ ५८ ॥ एतद्दः
 कथितं सर्वं कर्णं प्रति महत्फलम् । कर्णस्य वृषसेनस्तु वृषस्तस्या-
 हुआ उसमे बृहन्मना नामक पुत्र हुआ, हे राजेन्द्र ! बृहन्मनाने
 जयद्रथं नाम वाले पुत्रको उत्पन्न किया था उसके दृढरथ हुआ
 हे जनमेजय ! उसके विश्वजित् नामक पुत्र हुआ ५२-५३
 उसकी पुत्र कर्ण हुआ उसका पुत्र विकर्ण हुआ उसके भंगोंके
 कुलको बढाने वाले सौ पुत्र थे, राजा बृहद्दर्भके बृहन्मना नाम
 वाला जो पुत्र था ५४ उसकी दो पत्नियें थीं वे चैद्यकी शुभ
 पुत्रियें थीं, एकका नाम यशोदेवी था और दूसरीका नाम सत्या-
 था उन दोनोंके कारण वंश अलग होगया था ५५ हे राजेन्द्र !
 यशोदामें जयद्रथ नामक सुत हुआ था और सत्यामें ब्राह्मणके
 शांति आदि और क्षत्रियके शूरता आदि उत्कृष्ट गुणवाला सुत
 हुआ था ५६ विजयके धृति नामक सुत हुआ उसका सुत धृ-
 व्रत हुआ धृतव्रतके सत्यकर्मा नामक महायशस्वी सुत हुआ ५७
 सत्यरथके अधिरथ सूत नामक सुत हुआ, उसने कर्णको ग्रहण
 किया था अत एव कर्णपुत्र सूत कहलाता है ५८ यह सब मैंने
 तुमसे महावली कर्णको लक्ष्य करके कहा, कर्णके वृषसेन नामक

त्मजः स्मृतः ॥ ५६ ॥ एतेषां वंशजाः सर्वे राजानः कीर्तिता
मया । सत्यव्रता महात्मानः प्रजावन्तो महारथाः ॥ ६० ॥ ऋचे-
योस्तु महाराज रौद्राश्वतनयस्य ह । शृणु वंशमनुभोक्तं यत्र
जातोऽसि पार्थिव ॥ ६१ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो हरिवंशपर्वणि कुन्तेयुवंशानु-
कीर्तनं नाम एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

वैशम्पायन उवाच । अनाधृष्यस्तु राजर्षिर्ऋचेयुरचैकराट्
स्मृतः । ऋचेयोर्ज्वलना नाम भार्या वै तत्तत्कामजा ॥ १ ॥ तस्यां
स देव्यां राजर्षिर्मतिनारो महीपतिः । गतिनारमुतारचासंस्त्रयः
परमधार्मिकः ॥ २ ॥ तंसुगद्यो प्रतिरथः सुबाहुरचैव धार्मिकः ।
गौरी कन्या च विख्याता मांघातृजननी शुभा ॥ ३ ॥ सर्वे वेद-
विदस्तत्र ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः । सर्वे कृताह्वा वलिनः सर्गे
युद्धविशारदाः ॥ ४ ॥ पुत्रः प्रतिरथस्यासीत्कण्वः समभव-

सुत हुआ उसका सुत हुए कहलाता है ५६ इन सब सत्यव्रत-
धारी महात्मा राजा सन्तानवान् महारथी वंशजोंका मैंने वर्णन
कर दिया ६० हे राजन् ! अब तुम जिसमें उत्पन्न हुए हो उस
रौद्राश्वके सुत ऋचेयुके वंशको सुनो कि-॥ ६१ ॥ इक-
तीसवों अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥

वैशम्पायन मुनिने कहा, कि-राजर्षि ऋचेयु किसीसे भी दबने
वाला नहीं था और वह एकराट् नामसे प्रसिद्ध था, तत्कालकी
कन्या ज्वलना ऋचेयुकी स्त्री थी १ उस देवीमें मतिनार नामक
राजर्षि सुत हुआ, मतिनारके परमधार्मिकतीन सुत हुए २ उन
में पहिला तन्सु था (दूसरा) सुरथ और तीसरा परमधार्मिक
सुबाहु था और एक गौरी नाम वाली कन्या प्रसिद्ध है वह
कन्याणी मांघाताकी जननी थी ३ वे सब वेदवेत्ता सत्यभाषी
ब्राह्मणभक्त असत्रपारगामी बली और युद्धविशारद थे ४ प्रति-

नृपः । मेधातिथिः सुनस्तस्य यस्मात् काण्वायना द्विजाः ॥५॥
 ईलिनी भूप यस्यासीत् कन्या वै जनमेजय । ब्रह्मवादिन्यधि स्त्री
 च तंसुस्तामभ्यगच्छत ॥ ६ ॥ तंसोः सुरोधो राजर्षिधर्मनेत्रो
 महायशाः । ब्रह्मवादी पराक्रान्तस्तस्य भार्योपदानवी ॥ ७ ॥
 उपदानवी सुतोष्लेभे चतुरस्त्रौलिकात्मजान् । दुष्यन्तमथ सुष्मन्त
 मवीरमनघं तथा ॥ ८ ॥ दुष्यन् स्य तु दायादो भरतो नाम वीर्य-
 वान् । स सर्वदमनो नाम नागायुतबल्लो महान् ॥ ९ ॥ चक्रवर्ती
 सुनो जज्ञे दुष्यन्तस्य महात्मनः शकुन्तलायां भरतो यस्य नाम्ना
 स्थ भारताः ॥ १० ॥ दुष्यन्तं प्रति राजानं वागुवाचाशरी-
 रिणी । माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः ॥११॥
 भरस्व पुत्रं दुष्यन्त भावमस्थाः शकुन्तलाम् । रेतोधाः पुत्र उन्न-

रथका कएव नामक राजा सुत हुआ उसका सुत मेधातिथि हुआ
 इससे द्विज काण्वायन कहलाते हैं ५ हे राजन् ! हे जनमेजय !
 जिसकी कन्या ईलिनी थी वह राजा ईलिन ब्रह्मवादी ब्राह्मणों
 के समुदायमें अधिक मान्य था तंसुने उस ईलिनीको अपनी
 भार्या बनाया था ६ तंसुका सुरोध नामक राजर्षि सुत था वह
 धर्मवर्तक था ब्रह्मवादी था और पराक्रमी था, उसकी भार्या
 का नाम उपदानवी थी ७ उपदानवीने ऐलिक (ईलिनीके सुत)
 के चार सुतोंको उत्पन्न किया था (उनके नाम) दुष्यन्त सुष्यन्त
 मवीर और अनघ थे ८ दुष्यन्तके भरत नामक वीर्यवान् सुत
 हुआ, वह सर्वदमन नामसे भी प्रसिद्ध था और उस उदार
 मनुष्यमें एक अयुत हाथियोंका बल था ९ वह राजा भरत महा-
 रमा दुष्यन्तसे शकुन्तलामें उत्पन्न हुआ था, उसके नामसे ही
 तुम भारत कहलाते हो १० राजा दुष्यन्तने आकाशवाणीसे
 कहा, था, कि-माता चमड़ेकी धौंकनीकी समान है सुत जिससे
 उत्पन्न होता है उसीका होता है ११ हे दुष्यन्त ! तू सुतः।

यति नरदेव यमक्षयात् ॥ १२ ॥ त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्य-
माह शकुन्तला । भरतस्य विनष्टेषु तनयेषु महीपते ॥ १३ ॥
मातृणां तात क्रोपेन मया ते कथितं पुरा । वृद्धस्यतेरांगिरसः पुत्रो
राजन् महामुनिः । संक्रामितो भरद्वाजो मरुद्भिः क्रतुभिर्विभुः १४
अत्रैत्रोदाहरन्तीमं भरद्वाजस्य धीमतः । धर्मसंक्रमणं चापि मरु-
द्भिर्भरताय वै ॥ १५ ॥ अयाजपद्भग्द्वाजो मरुद्भिः क्रतुभिर्हि
तम् । पूर्वं तु वितथे तस्य कृते वै पुत्रजन्मनि ॥ १६ ॥ ततोऽथ-
वितथो नाम भरद्वाजसुतोऽभवत् । ततोऽथवितथे जाते भरतस्तु
दिवं ययौ ॥ १७ ॥ वितथं चाभिषिच्यथ भरद्वाजो वनं ययौ ।
स राजा वितथः पुत्रान् जनयामास पञ्च वै ॥ १८ ॥ सुहोत्रं
च सुहोतारं गर्गं गर्गं तथैव च । कपिलं च महात्मानं सुहोत्रस्य
सुतद्वयम् ॥ १९ ॥ काशकश्च महासत्त्वस्तथा गृत्सपतिर्नृपः । तथा

पालन कर और शकुन्तलाका अपमान न कर हे नरदेव ! वीर्य
धारण करने वाला सुत यमलोकमें उद्धार करता है १२ तू इस
गर्भका धारण कराने वाला है, यह बात शकुन्तलाने सत्य कही
है, हे तात ! माताओंके क्रोपके कारण भरतके सुतोंके नष्ट होजाने
पर अङ्गिरा गोत्री महामुनि भरद्वाजको क्रतुदेवता मरुतोंने भरत
का सुत बना दिया था ॥ १३ ॥ १४ ॥ यहाँ ही पर बुद्धिमान्
भरद्वाजका मरुतोंके द्वारा भरतके लिये किया हुआ धर्मसंक्रमण
दीखता है १५ जब माताओंने सुतको मार कर भरतके सुतजन्मको
निष्फल कर दिया था तब क्रतुदेवता मरुतोंने उन भरद्वाजको
नियुक्त कर दिया १६ तदनन्तर भरद्वाजके अथवितथ नामक सुत
हुआ अथवितथके उत्पन्न होने पर भरत स्वर्गको चला गया
था ॥ १७ ॥ भरद्वाज वितथका अभिषेक करके वनको चला
गया, उस राजा वितथने पाँचसुतोंको उत्पन्न किया था । १८ ।
(उनके नाम इस प्रकार हैं) सुहोत्र सुहोता गगर्ग और महात्मा

गृत्समतेः पुत्रा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः ॥ २० ॥ काशरच
 काशगो राजन् पुत्रो दीर्घतपास्तथा । बभूव दीर्घतपसो विद्वान्
 धन्वन्तरिः सुतः ॥ २१ ॥ धन्वन्तरेस्तु तनयः केतुमानिति
 विश्रुतः । अथकेतु मतः पुत्रो वीरो भीमरथो नृपः ॥ २२ ॥ सुतो
 भीमरथस्यासीद् दिवोदासः प्रजेश्वरः । दिवोदास इति ख्यातः
 सर्वरत्नोविनाशनः ॥ २३ ॥ एतस्मिन्नेव काले तु पुरीं वारा-
 णसीं नृप । शून्यां निवेशयामास क्षेमको नाम राज्ञसः । शप्ता
 हि सा मतिमता निकुम्भेन महात्मना ॥ २४ ॥ शून्या वर्षसहस्रं
 नै भवित्रीति नराधिप । तस्यां तु शप्तमात्रायां दिवोदासः प्रजे-
 श्वरः । विपयति पुरीं रम्यां गोमत्यां सन्पवेशयत् ॥ २५ ॥
 भद्रश्रेयस्य पूर्वन्तु पुरी वाराणसी ह्यभूत् । यदुन्शमसूतस्य तप-
 स्यभिरतस्य च ॥ २६ ॥ भद्रश्रेयस्य पुत्राणां शतमुत्तमधन्वि-

कपिल, सुहोत्र काशक और महासत्त्व राजा गृत्समति नामक
 दो सुत हुए, गृत्समतिके ब्राह्मण क्षत्रिय और चैरय जातिके सुत
 हुए थे । १६ । २० । हे राजन् ! काशने काशि देश वसाये
 और उसके दीर्घतपा नामक पुत्र हुआ, दीर्घतपाके धन्वन्तरि
 नामक पुत्र हुआ ॥ २१ ॥ धन्वन्तरिका पुत्र केतुमान् नामसे
 प्रसिद्ध है, केतुमान्का पुत्र वीर राजा भीमरथ हुआ ॥ २२ ॥
 भीमरथका दिवोदास नामक प्रजाधीश सुत हुआ, दिवोदास
 सब राजसोंको नष्ट करनेमें प्रसिद्ध है ॥ २३ ॥ हे राजन् !
 इसी समय उजाड़ पड़ी हुई वाराणसी पुरीके क्षेमक नाम वाले
 राजसने वसाया था, हे नराधिप ! उसको महात्मा बुद्धिमान्
 निकुम्भने शाप दिया था, कि—यह सहस्र वर्ष तक उजाड़ पड़ी
 रहेगी, शाप होते क्षण ही प्रजाके स्वामी दिवोदासने अपने
 राज्यके आगे गोमतीके तट पर अपनी रमणीय नगरी बसाई
 थी ॥ २४—२५ ॥ वाराणसी पुरी पहिले तपसे प्रेम करने वाले

यति नरदेव यमन्तपात् ॥ १२ ॥ त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्य-
माह शकुन्तला । भरतस्य विनष्टेषु तनयेषु महीपते ॥ १३ ॥
मातृणां तात कोपेन मया ते कथितं पुरा । वृहस्पतेरांगिरसः पुत्रो
राजन् महासुनिः । संक्रामितो भरद्वाजो मरुद्भिः क्रतुभिर्विभुः १४
अत्रैत्रोदाहरन्तीमं भरद्वाजस्य धीमतः । धर्मसंक्रमणं चापि मरु-
द्भिर्भरताय वै ॥ १५ ॥ अयाजपद्भ्यद्वाजो मरुद्भिः क्रतुभिर्हि
तम् । पूर्वं तु वितथे तस्य कृते वै पुत्रजन्मनि ॥ १६ ॥ ततोऽथ-
वितथो नाम भरद्वाजसुतोऽभवत् । ततोऽथवितथे जाते भरतस्तु
दिवं ययौ ॥ १७ ॥ वितथं चाभिपिच्यथ भरद्वाजो वनं ययौ ।
स राजा वितथः पुत्रान् जनयामास पञ्च वै ॥ १८ ॥ सुहोत्रं
च सुहोतारं गयं गर्गं तथैव च । कपित्थं च महात्मानं सुहोत्रस्य
सुनद्वयम् ॥ १९ ॥ काशकरश्च महासत्त्वस्तथा गृत्समतिर्नृपः । तथा

पालन कर और शकुन्तलाका अपमान न कर हे नरदेव ! वीर्य
धारण करने वाला सुत यमलोकमें उद्धार करता है १२ तू इस
गर्भका धारण कराने वाला है, यह बात शकुन्तलाने सत्य कही
है, हे तान ! माताओंके कोपके कारण भरतके सुतोंके नष्ट होजाने
पर अद्विरा गोत्री महासुनि भरद्वाजको क्रतुदेवता मरुतोंने भरत
का सुत बना दिया था ॥ १३ ॥ १४ ॥ यहाँ ही पर बुद्धिमान्
भरद्वाजका मरुतोंके द्वारा भरतके लिये किया हुआ धर्मसंक्रमण
दीखता है १५ जब माताओंने सुतको मार कर भरतके सुतजन्मको
निष्फल कर दिया था तब क्रतुदेवता मरुतोंने उन भरद्वाजको
नियुक्त कर दिया १६ तदनन्तर भरद्वाजके अथवितथ नामक सुत
हुआ अथवितथके उत्पन्न होने पर भरत स्वर्गको चला गया
था ॥ १७ ॥ भरद्वाज वितथका अभिषेक करके वनको चला
गया, उस राजा वितथने पाँचसुतोंको उत्पन्न किया था । १८ ।
(उनके नाम इस प्रकार हैं)सुहोत्र सुहोता गय गर्ग और महात्मा

गृत्समतेः पुत्रा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः ॥ २० ॥ काशरच
 काशयो राजन् पुत्रो दीर्घतपास्तथा । बभूव दीर्घतपसो विद्वान्
 धन्वन्तरिः सुतः ॥ २१ ॥ धन्वन्तरेस्तु तनयः केतुमानिति
 विश्रुतः । अथकेतु मतः पुत्रो वीरो भीमरथो नृपः ॥ २२ ॥ सुतो
 भीमरथस्यासीद् दिवोदासः प्रजेश्वरः । दिवोदास इति ख्यातः
 सर्वरक्षोविनाशनः ॥ २३ ॥ एतस्मिन्नेव काले तु पुरीं वारा-
 णसीं नृप । शून्यां निवेशयामास क्षेमको नाम राज्ञसः । शता
 हि सा मतिमता निकुम्भेन महात्मना ॥ २४ ॥ शून्या वर्षसहस्रं
 वै भवित्रीति नराधिप । तस्यां तु शप्तमात्रायां दिवोदासः प्रजे-
 श्वरः । विपयांते पुरीं रम्यां गोमत्यां संन्यवेशयत् ॥ २५ ॥
 भद्रश्रेण्यस्य पूर्वन्तु पुरी वाराणसी ह्यभूत् । यदुवंशमसूतस्य तप-
 स्यभिरतस्य च ॥ २६ ॥ भद्रश्रेण्यस्य पुत्राणां शतमुत्तमधन्वि-

कपिल, सुहोत्र काशक और महासत्त्व राजा गृत्समति नामक
 दो सुत हुए, गृत्समतिके ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जातिके सुत
 हुए थे । १६ । २० । हे राजन् ! काशने काशि देश बसाये
 और उसके दीर्घतपा नामक पुत्र हुआ, दीर्घतपाके धन्वन्तरि
 नामक पुत्र हुआ ॥ २१ ॥ धन्वन्तरिका पुत्र केतुमान् नामसे
 प्रसिद्ध है, केतुमान्का पुत्र वीर राजा भीमरथ हुआ ॥ २२ ॥
 भीमरथका दिवोदास नामक प्रजाधीश सुत हुआ, दिवोदास
 सब राजसोंको नष्ट करनेमें प्रसिद्ध है ॥ २३ ॥ हे राजन् !
 इसी समय उजाड़ पड़ी हुई वाराणसी पुरीको क्षेमक नाम वाले
 राजसने बसाया था, हे नराधिप ! उसको महात्मा बुद्धिमान्
 निकुम्भने शाप दिया था, कि—यह सहस्र वर्ष तक उजाड़ पड़ी
 रहेगी, शाप होते क्षण ही प्रजाके स्वामी दिवोदासने अपने
 राज्यके आगे गोमतीके तट पर अपनी रमणीय नगरी बसाई
 थी ॥ २४—२५ ॥ वाराणसी पुरी पहिले तपसे प्रेम करने वाले

नाम् । हत्वा निवेशयामास दिवोदासः प्रजेश्वरः ॥२७॥ दिवो-
दासस्य पुत्रस्तु वीरो राजा प्रतर्दनः । प्रतर्दनस्य पुत्रौ द्वौ वत्सो
भार्गव एव च ॥ २८ ॥ अलर्कः राजपुत्रस्तु राजा सन्नतिमान्
भुवि । हैहयस्य तु दायार्थं हतवान् वीं महीपतिः ॥ २९ ॥
आजहो पितृदायार्थं दिवोदासहृतं वलात् । भद्रश्रेण्यस्य पुत्रेण
दुर्दमेन महात्मना । दिवोदासेन वालेति घृणया परिवर्जितः ३०
अष्टारथो नाम नृपः सुतो भीमरथस्य वै । तेन पुत्रेषु वालेषु
प्रहृतं तस्य भारत ॥३१॥ वीरस्यांतं महाराज क्षत्रियेण विधि-
त्सता । अलर्कः काशिराजस्तु ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः ॥ ३२ ॥
षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च । तस्यासीत् सुमहद्राज्यं रूप-
यौवनशालिनः ॥ ३३ ॥ युवा रूपेण संपन्न आसीत् काशि-

यदुवंशी भद्रश्रेण्यकी थी ॥ २६ ॥ प्रजाके स्वामी दिवोदासने
भद्रश्रेण्यके सौ धनुर्धर पुत्रोंको मार कर उस पर अधिकार कर
लिया था (ये एक ही कल्पमें समान नाम कार्य वाले दूसरे व्यक्ति
हुए हैं) ॥ २७ ॥ दिवोदासके राजा प्रतर्दन वीर पुत्र हुआ
प्रतर्दनके वत्स और भार्गव नाम वाले सुत हुए ॥२८॥ राजपुत्र
अलर्क पृथ्वीमें बड़ा नमू था उस राजाने हैहयके भागको लेलिया
था ॥ २९ ॥ भद्रश्रेण्यके दुर्दम नाम वाले पुत्रको दिवोदासने
बालक समझ दणवश छोड़ दिया था, उस महात्माने अपने
पिताके राज्यको कि-जिसके दिवोदासने बलपूर्वक छीन लिया था
उसको उसने (-उसका सुत बन कर) फिर लेलिया था ॥३०॥
भीमरथ उपनाम वाले दिवोदासका सुत अष्टारथ उपनाम वाला
प्रतर्दन हुआ हे महाराज ! उसने वीरका अन्त करनेकी इच्छासे
दुर्दमके असमर्थ सुतोसे उनका राज्य छीन लिया था (प्रतर्दन
का पुत्र) काशिराज अलर्क ब्राह्मणभक्त और सत्यमति
था ॥३१॥३२॥उस रूपवान् तरुणका राज्य अष्टषष्ठ सहस्र वर्ष

कुलोद्भवः । लोपामुद्राप्रसादेन परमायुरवाप सः ॥ ३४ ॥ वय
 सोन्ते महाबाहुर्हत्वा क्षेमकरान्तसम् । शून्यां निवेशयामास पुरीं
 वाराणसीं नृप ॥ ३५ ॥ अक्षरकस्य तु दायादः सुनीथो नाम
 पार्थिवः । सुनीथस्य तु दायादः क्षेम्यो नाम महायशाः ॥ ३६ ॥
 क्षेम्यस्य केतुमान् पुत्रो वर्षकेतुस्ततोऽभवत् । वर्षकेतोस्तु दायादो
 विश्विर्नाम प्रजेश्वरः ॥ ३७ ॥ आनर्तस्तु विभोः पुत्रः सुकुमार-
 स्ततोऽभवत् । पुत्रस्तु सुकुमारस्य सत्यकेतुर्महारथः ॥ ३८ ॥
 ततोऽप्यन्महातेजा राजा परमधार्मिकः । वत्सस्य वत्सभूमिस्तु
 भार्गभूमिस्तु भार्गवात् ॥ ३९ ॥ एते त्वङ्गिरसः पुत्रा जाता वंशेऽथ
 भार्गवे । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च भरतर्षभ ॥ ४० ॥
 सुहोत्रस्य बृहत्पुत्रो बृहत्स्तनयास्त्रयः । अजमीढो द्विमीढश्च
 पुरुमीढश्च वीर्यवान् ॥ ४१ ॥ अजमीढस्य पत्न्यस्तु तिस्रो वै
 तक रहा था और वह छियासठ सहस्र वर्ष तक तरुण बना रहा
 था उस काशिकुलको उठाने वालेने लोपामुद्राके प्रसादसे परमायु
 पाई थी ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ उस महाभुजने अपनी वृद्धावस्थामें क्षेमक
 रान्तसको मार कर शून्य पड़ी हुई वाराणसीको बसाया था ३५
 अक्षरकके सुनीथ नामक राजा पुत्र हुआ सुनीथके क्षेम्य नामक
 महायशास्वी सुत हुआ, क्षेम्यके केतुमान् नामक सुत हुआ उसके
 वर्षकेतु नामक तनय हुआ वर्षकेतुके विश्व नामक प्रजापति सुत
 हुआ विश्वके आनर्त नामक सुत हुआ उसके सुकुमार हुआ,
 सुकुमारके सत्यकेतु नामक महारथी सुत हुआ, तदनन्तर वत्सके
 वत्सभूमि नामक परम धार्मिक महातेजस्वी राजा हुआ और
 भार्ग व से भृगुभूमि हुआ ॥ ३६—३९ ॥ ये अंगिरसके
 सुत भार्गववंशमें उत्पन्न हुए ये भरतर्षभ ! इनकी सन्तान ब्राह्मण
 क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं ॥ ४० ॥ सुहोत्रके बृहत् नामक पुत्र
 हुआ, बृहत्के अजमीढ द्विमीढ और वीर्यवान् पुरुमीढ नामक

यशसान्विताः । नीलिनी केशिनी चैव धूमिनी च वरांगनाः ४२
 अजमीढस्य केशिन्या जङ्गे जन्हुः प्रतापवान् । आजहे यो महा-
 सत्रं सर्वमेधं महामखम् ॥ ४३ ॥ पतिलोभेन यं गंगा विनीता-
 ऽभिससार ह । नेच्छतः स्रावयामास तस्य गंगाऽथ तत्सदः ४४
 स तथा प्लावितं दृष्ट्वा यज्ञवाटं परन्तप । जन्हुरप्यब्रवीद्गङ्गां क्रुद्धो
 भरतसत्तम ॥ ४५ ॥ एष ते त्रिषु लोकेषु, संक्षिप्त्वापः, पिवा-
 म्यहम् । अस्य गंगेऽवलेपस्य सद्यः फलमवाप्नुहि ॥ ४६ ॥
 ततः पीता महात्मानो गंगां दृष्ट्वा महर्षयः । उपनिन्पुर्महाभागा
 दुहितृत्वाय जान्हवीम् ॥ ४७ ॥ युवनाश्वस्य पुत्रीं तु कावेरीं
 जन्हुरावदत् । गंगाशापेन देहार्थं यस्याः पश्चन्नदीकृतम् ४८
 जन्होस्तु दयितः पुत्रस्त्वजको नाम वीर्यवान् । अजकस्य तु

तीन पुत्र हुए ॥४१॥ अजमीढकी नीलिनी केशिनी और धूमिनी
 नाम वाली तीन श्रेष्ठ स्त्रियों थीं ॥ ४२ ॥ अजमीढके केशिनीमें
 जन्हु नामक प्रतापी पुत्र हुआ, उसने बड़े भारी सदावर्त वाले
 सर्वमेध नामक महामखको किया था ॥ ४३ ॥ गङ्गा उसको पति
 बनानेके लोभसे उसके पास गई थी, परन्तु जब उसने गङ्गाको
 अपनी पत्नी बनाना स्वीकार नहीं किया तब गङ्गाजी उसकी
 सभाको जलसे डुवाने लगी ॥४४॥ हे परन्तप ! हे भरतसत्तम !
 यज्ञवाटको डूबते हुए देख कर जन्हुने क्रोधमें भर कर गङ्गासे
 कहा, कि-॥ ४५ ॥ हे गङ्गे ! मैं तेरे तीनों लोकोंमें फैले हुए
 जलको संक्षिप्त करके पिये लेता हूँ, हे गङ्गे ! अब तू अपने कर्मके
 फलको शीघ्र ही पाती है ॥ ४६ ॥ तदनन्तर गङ्गाजीको पी हुई
 देख कर महात्माओंने गङ्गाजीको राजा जन्हुकी कन्या मनवा
 दिया ॥ ४७ ॥ युवनाश्व जन्हुकी कन्या कावेरीको विवाह कर
 लाया था, गङ्गाके शापके कारण उसका आधा देह नदीमय
 होगया था ॥ ४८ ॥ जन्हुके अजरु नामक वीर्यवान् पुत्र हुआ

दापादो बलाकारवो महीपतिः ॥ ४६ ॥ बभूव मृगयाशीलः
 कुशिकस्तस्य चात्मजः । पन्धनीः, सह संरुद्धो राजा वनचरैस्तदा
 कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमं प्रभुः । लभेगमिति तं शक्रह्ना-
 सादभ्येत्य जज्ञिवान् ॥५१॥ स गाधिरभवद्राजा मयवान् कौशिकः
 स्वयम् । विश्वामित्रस्तु गाधेयो राजा विश्वरथस्तदा ॥ ५२ ॥
 विश्वकृद्विश्वजिच्चैव तथा सत्यवती नृप । ऋचीकाञ्जमदग्निस्तु
 सत्यवत्यामजायत ॥ ५३ ॥ विश्वामित्रस्य तु सुता देवरातादयः
 स्मृताः । मरुयातास्त्रिषु लोकेषु तेषां नामानि मे शृणु ॥ ५४ ॥
 देवश्रवाः कतिश्चैव यस्मात् कात्यायनाः स्मृताः । शालावत्या
 हिरण्यान्तो रेणोर्जज्ञेऽथ रेणुमान् ॥५५॥ सांकृत्यो गालवो राजन्
 मौद्गल्यश्चेति विश्रुताः । तेषां ख्यातानि गोत्राणि कौशिकानां
 महात्मनाम् ॥५६॥ पाणिनो बभ्रवश्चैव ध्यानजप्यास्तथैव च ।

यजकके बलाकारव नामक पुत्र हुआ वह राजा आखेटका प्रेमी
 था उसका पुत्र कुशिक हुआ उस राजाको वनचारी पन्धनीने
 रोक लिया था ४६ कुशिक इन्द्रकी समान पुत्र पानेकी इच्छासे
 तप करने लगे तब इन्द्र त्रासने कारण उनके यहाँ उत्पन्न हुए
 थे ५०-५१ इन्द्र गाधिके रूपमें उत्पन्न हुआ था, राजा गाधि
 का पुत्र विश्वामित्र हुआ वह राजा विश्वरथ नामसे प्रसिद्ध था
 और उनके विश्वकृत् विश्वजित् और सत्यवती नाम वाली पुत्री
 भी उत्पन्न हुई थी, ऋचीक ऋपिसे सत्यवतीमें जमदग्नि उत्पन्न
 हुए थे ५-५३ विश्वामित्रके देवरात आदि पुत्र कहे हैं, वे
 तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं उनके नामको तुम मुझसे सुनो ५४
 देवश्रवा कति (इस कतिके वंशज) कात्यायन नामसे प्रसिद्ध
 हैं (विश्वामित्रके) शालावतीसे हिरण्यान्त और रेणुसे रेणुमान्
 नामक पुत्र हुआ था और हे राजन् ! सांकृत्य गालव और मौद्ग-
 ल्य भी उनके पुत्र प्रसिद्ध हैं इन महात्मा कौशिकोंके गोत्र प्रसिद्ध

पार्थिव देवराताश्च शालंकायनसौभवाः ॥ ५७ ॥ लोहित्या
 यामदूनाश्च तथा कारीषयः स्मृतः । विश्रुताः कौशिका राजं-
 स्तथाऽन्ये सैंधवायनाः ॥ ५८ ॥ ऋष्यन्तरनिवासाश्च कौशिका
 बहवः स्मृताः । पीरवस्य महाराज भ्रक्षर्णेः कौशिकस्य ह ॥ ५९ ॥
 सत्रन्धो ह्यस्य वंशोऽस्मिन् ब्रह्मक्षत्रस्य विश्रुतः ॥ विश्वामित्रात्मजानां
 तु शुनःशोफोऽग्रजः स्मृतः ॥ ६० ॥ भार्गवः कौशिकर्त्ता हि प्राप्तः
 स मुनिसत्तमः । देवरातादयश्चान्ये विश्वामित्रस्य वै सुताः ६१
 दृपद्वतीसुतभापि विरवामित्रादथाष्टकः । अष्टकस्य सुतो लौहिः
 मोक्तो जन्हुगणो मया ॥ ६२ ॥ अजमीढोऽपरो वंशः श्रूयतां
 पुरुषर्षभ । अजमीढस्य नीलिन्यां सुशान्तिरुदपद्यत ॥ ६३ ॥
 पुरुजातिः सुशान्तिस्तु बाह्यारवः पुरुजातितः । बाह्यारवतनयाः
 पञ्च बभूवुरपरोपमाः ॥ ६४ ॥ सुद्वलः सृञ्जयश्चैव राजा धृददिषुः
 हैं ५५—५६ पाणिन ब्रह्म ध्यानजप्य पार्थिव देवरात शालं-
 कायन सौभव (ये भी विश्वामित्रके पुत्र हैं) ५७ हे राजन् !
 कौशिक लौहित्य यामदूत कारीपि और सैंधवायन नामसे प्रसिद्ध
 हैं ५८ (इनकेसे नाम वाले परन्तु दूसरे गोत्रके) ऋषियोंमें विवाह
 करने वाले और भी बहुतसे कौशिक प्रसिद्ध हैं ५९ इस वंशमें
 ब्राह्मण और क्षत्रियका सम्बन्ध प्रसिद्ध है, विश्वामित्रके पुत्रोंमें
 शुनःशोफ बड़ा पुत्र है ॥ ६० ॥ मुनिसत्तम भार्गव कौशिकत्वको
 प्राप्त होगए- ये देवरात आदि विश्वामित्रके और भी पुत्र
 कहे हैं, ॥ ६१ ॥ विश्वामित्रके दृपद्वतीसे अष्टक नामक पुत्र
 हुआ था, अष्टकका पुत्र लौहि हुआ यह मैंने जन्हुके वंशज
 कह दिये ६२ हे भरतर्षभ ! अब तुम अजमीढके दूसरे वंशको
 सुनों, अजमीढके नीलिनीमें सुशान्ति नामक पुत्र हुआ था ६३
 सुशान्तिका पुरुजाति नामक पुत्र हुआ और पुरुजातिके बाह्यारव
 नामक पुत्र हुआ बाह्यारवके देवताकी समान पाँच सुत उत्पन्न

स्मृतः । यवीनरश्च वक्रांतः कृमिलारश्च पञ्चमः ॥ ६५ ॥
 पंचैते रक्षणायालं देशानामिति विश्रुताः । पंचानां त्रिदि पञ्चालान् स्फीर्तर्जानपदैर्दृत्तान् ॥ ६६ ॥ अलं संरक्षणं तेषां पञ्चाला इति विश्रुताः । मुद्गलस्य तु दायादो मौद्गल्यः सुमहायशाः ६७ सर्व एते महात्मानः क्षत्रोपेता द्विजातयः । एते ह्यंगिरसः पत्नं संश्रिताः काण्वमौद्गलाः ॥ ६८ ॥ मौद्गलस्य सुतो ज्येष्ठो ब्रह्मर्षिः सुमहायशाः इन्द्रसेनो यतो गर्भं वध्न्यश्च मृत्युपद्यत ॥ ६९ ॥ वध्न्यश्चान्मिथुनं जज्ञे मेनकायामिति श्रुतिः दिवोदासश्च राजर्षिरहन्या च यशस्विनी ॥ ७० ॥ शरद्वतस्य दायादमहत्या समसूयत । शतानन्दमृषिश्रेष्ठं तस्यापि सुमहायशाः ॥ ७१ ॥ पुत्रः सत्त्वधृतिर्नाम धनुर्वेदस्य पारगः । तस्य सत्यधृते रेतो हृष्टाप्सर-

हुए थे ६४ (उनके नाम इस प्रकार हैं) मुद्गल मुद्गय और राजा बृहदिषु पराक्रमी यवीनर और पाँचवाँ कृमिलारश्च ६५ यह बात प्रसिद्ध थी, ये पाँचों देशकी रक्षा करनेमें समर्थ है इन पाँचोंके फैले हुए जनपदोंको पाञ्चाल समझो ६६ पञ्चालदेश का रक्षण करनेमें समर्थ होनेके कारण वे पञ्चाल कहलाने लगे मुद्गलका सुत महायशस्वी मौद्गल्य हुआ ६७ ये सब महात्मा क्षत्रियधर्मसे अलग थे और द्विजाति थे ये काण्व और मौद्गल अङ्गिरस पत्नका आश्रय लिये हुए थे, मौद्गलका ज्येष्ठ सुत महायशस्वी ब्रह्मर्षि इन्द्रसेन हुआ उसका पुत्र वध्न्यश्च हुआ ६८-६९ वध्न्यश्चके मेनकामें दो सन्तान उत्पन्न हुई थीं एक राजर्षि दिवोदास और दूसरी यशस्विनी अहन्या ७० अहन्याने शरद्वान् पुत्र महायशस्वी शतानन्द ऋषिको उत्पन्न किया था ७१ सत्यधृति नामक पुत्र हुआ वह धनुर्वेदका पारगामी था अप्सराको सामने देख कर उन सत्यधृतिका वीर्य शरस्तम्ब (सैंटीके बन) में टपक गया उससे मिथुन सन्तान उत्पन्न हुई, राजा शन्तनु

समग्रतः ॥७२॥ अत्रस्कन्नं शरस्तम्बे मिथुनं समपद्यत । कृपाया
 तच्च जग्राह शन्तनुर्मृगयां गतः ॥ ७३ ॥ कृपः स्मृतः स वै
 तस्माद् गौतमी च कृपी तथा । एते शारद्वताः प्रोक्ता एते ते
 गौतमाः स्मृताः ॥ ७४ ॥ अत ऊर्ध्वं पञ्चदशमि दिवोदामस्य
 सन्ततिम् । दिवोदासस्य दायादो ब्रह्मर्षिर्मित्रयुर्नृपः ॥ ७५ ॥
 मैत्रायणस्तनः सोमो मैत्रेयास्तु ततः स्मृताः । एते हि सन्थिताः
 पक्षं क्षत्रोपेतास्तु भार्गवाः ॥ ७६ ॥ आसीत् पञ्चजनः पुत्रः
 सृञ्जयस्य महात्मनः । सुतः सोमजनस्यापि सोमदत्तो महीपतिः ७७
 सोमदत्तस्य दायादः सहदेवो महायशाः । सहदेवसुतश्चापि सोमको
 नाम पार्थिवः ॥ ७८ ॥ अजमीढात् पुनर्जातः क्षीणवंशे तु सोमकः ।
 सोमकस्य सुतो जन्तुर्यस्य पुत्रशतं वभौ ॥ ७९ ॥ तेषां यवीयान
 पृपतो द्रुपदस्य पिता मभुः । धृष्टद्युम्नस्तु द्रुपदाद् धृष्टकेतुश्च

शिकार खेलनेको गया था उसने कृपा करके उनको उठा
 लिया ७२—७३ इस कारण पुत्र कृप कहलाये और गौतमी
 कृपी कहलाई ये तुम्हसे शारद्वत और गौतम कह दिये ७४ अब
 मैं तुमसे दिवोदासकी सन्तानको कहता हूँ दिवोदासका पुत्र ब्रह्म-
 र्षि मित्रयु नामक राजा हुआ ७५ उसका पुत्र मैत्रायण सोम
 हुआ उसके वंशज मैत्रेय कहलाते हैं, ये भार्गव क्षत्रोपेत थे और
 (क्षत्रिय) पक्षको लेकर रहते महात्मा सृञ्जयका पञ्चजन नामक
 पुत्र हुआ, पञ्चजनका राजा सोमदत्त नामक पुत्र हुआ ७७
 सोमदत्तका पुत्र महायशस्वी सहदेव हुआ, सहदेवका पुत्र मही-
 पति सोमक हुआ ॥ ७८ ॥ अजमीढवंशी सहदेवने (सौ तनय
 पानेके लिये अपने तनयको पशु बनाकर) उससे यज्ञ किया
 था तब वंशके क्षीण होने पर सोमक फिर उत्पन्न हुआ था,
 सोमकका तनय जन्तु हुआ उसके सौ तनय हुए ॥७९॥ उनमें
 छोटा पृपत् था वह मभु द्रुपदका पिता था, द्रुपदके धृष्टद्युम्न

तस्मृतः ॥ ८० ॥ अजमीढाः स्पृता ह्येते महात्मानस्तु सोमकाः ।
 पुत्राणामजमीढस्य सोमरुत्वं महात्मनः ॥ ८१ ॥ महिषी त्वज-
 मीढस्य धूमिनी पुन्यृद्धिनी । तृतीया तव पूर्वपां जननी पृथिवी-
 पते ॥ ८२ ॥ सा तु पुत्रार्थिनी देवी व्रतचर्यासमन्विता । ततो
 वर्षायुतं तप्त्या तपः परमदुष्करम् ॥ ८३ ॥ हुत्वाऽग्निं विधिवत्
 सा तु पवित्रमितभोजना । अग्निहोत्रकुशेष्वेव सुष्वाप जनमेजया
 धूमिन्या स तथा देव्या त्वजमीढः समेयिवान् ॥ ८४ ॥ अन्न
 संजनयामास धूमवर्णं सुदर्शनम् । अन्नात् संवरणो जज्ञे कुरुः
 संवरणात्तया । यः प्रयागादतिक्रम्य कुरुक्षेत्रं चकार ह ॥ ८५ ॥
 तद्वैतत् स महाभागो वर्षाणि स बहून्थथ । तप्यमानो तदा शक्रो
 यत्रास्य वरदो वषाँ ॥ ८६ ॥ पुण्यं च रमणीयं च पुण्यकृद्भि-

हुआ उसका तनय धृष्टकेतु हुआ ॥ ८० ॥ अजमीढर्षी महात्मा
 सोमकांका वर्णन करदिया, महात्मा अजमीढके वंशज सोमरु
 कहलाते थे ॥ ८१ ॥ हे पृथिवीपते ! राजा अजमीढकी तीसरी
 पत्नी धूमिनी थी, वह पुत्राभिलाषिणी तेरे पूर्वर्गोंकी जननी
 थी ॥ ८२ ॥ वह देवी पुत्र पानेकी अभिलाषासे ब्रह्मचर्य व्रतका
 पालन कर अष्टौ वर्ष तक परम दुष्कर तप करती रही, तदनन्तर
 वह विधिपूर्वक अग्निमें होम करके पवित्र और थोड़े भोजनका
 भक्षण करके हे जनमेजय ! अग्निहोत्रके कुशों पर ही सो गई
 तब देवी धूमिनीके पास अजमीढ गए ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ और
 उसने धुमैले वर्ण वाले दर्शनीय अन्नको उत्पन्न किया, अन्नसे
 संवरण उत्पन्न हुआ संवरणसे कुरु उत्पन्न हुआ उसने अपनी
 राजधानी प्रयागसे उठा कर कुरुक्षेत्रमें बसाई थी ॥ ८५ ॥ वह
 कुरुक्षेत्र पुण्यमय रमणीय और पुण्यात्माओंसे बसा हुआ था,
 जब वह तहाँ बहुत दिनों तक रह कर तप करता रहा तब इन्द्र
 ने तहाँ पर कुरुको वर दिया था, उसका वंश बढ़ा भारी है,

निर्णेवितम् । तस्यान्ववायः सुभद्रास्तस्य नाम्ना स्थ कौरवाः ८७
 कुरोश्च पुत्राश्चत्वारः सुधन्वा सुधनुस्तथा । परिक्षिचन महाबाहुः
 गवस्त्रारिमेजयः ॥ ८८ ॥ सुधन्वनस्तु दायादः सुदोत्रो मतिर्मा-
 स्ततः । च्यवनस्तस्य पुत्रस्तु राजा धर्मार्थकोविदः ॥ ८९ ॥ च्यव-
 नात् कृतयज्ञस्तु इष्टा गङ्गाः स धर्मवित् । विश्रुतं जनयामास पुत्र-
 गिन्द्रसमं नृपः ॥ ९० ॥ चैत्र्योपरिचरं वीरं वसुं नामान्तरिक्ष-
 गम् । चैत्र्योपरिचराज्जज्ञे गिरिका सप्त मानवान् ॥ ९१ ॥ महा-
 रथो मगधराट् विश्रुतो यो बृहद्रथः । प्रत्यग्रहः कुशश्चैव यमाहु-
 र्मणिवाहनम् ॥ ९२ ॥ मारुतश्च यदुश्चैव मत्स्यः काली च सत्तमः ।
 बृहद्रथस्य दायादः कुशाग्रो नाम विश्रुतः ॥ ९३ ॥ कुशाग्रस्या-
 त्मजो विद्वान् वृषभो नाम वीर्यवान् । वृषभस्य तु दायादः पुष्प-

उसीके नागसे तुम कौरव कहलाते हो ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ कुरुके
 सुधन्वा सुधनु महाबाहु परीक्षित और उत्कृष्ट अरिमेजय नाम
 वाले चार पुत्र हुए ॥ ८८ ॥ सुधन्वाका सुदोत्र नामक बुद्धिमान्
 पुत्र हुआ उसका पुत्र धर्म और अर्थमें कुशल च्यवन हुआ ८९
 च्यवनसे कृतयज्ञ हुआ उस धर्मात्मासे यज्ञ करे उस यज्ञ करने
 वालेने इन्द्रकी समान प्रसिद्ध अन्तरिक्षचारी चैत्र्य उपरिचर वसु
 नामक पुत्रको उत्पन्न किया उस उपरिचर चैत्र्यसे गिरिकाने
 सात मानवीसन्तानोंको उत्पन्न किया ॥ ९० ॥ ९१ ॥ (उनके
 नाग इस प्रकार हैं, एक) महारथी मगधराज वह बृहद्रथ नाम
 से प्रसिद्ध है (दूसरा) प्रत्यग्रह और (तीसरा) कुश इनको
 मणिवाहन भी कहते हैं (चौथा) मारुत (पाँचवाँ) यदु और
 मत्स्य (अर्थात् मत्सीके पाससे बड़ी) काली सत्पत्नी और
 (सातवाँ) पुत्र सत्तम, बृहद्रथका पुत्र कुशाग्र नामसे प्रसिद्ध
 है ॥ ९२-९३ ॥ वीर्यवान् विद्वान् वृषभ कुशाग्रका पुत्र हुआ ९४
 वृषभका पुष्पवान् नामक धार्मिक पुत्र हुआ उसका पुत्र परा-

वान्नाम धार्मिकः । दायादस्तस्य विक्रान्तो राजा सत्यहितः
 स्मृतः ॥६५॥ तस्य पुत्रः स धर्मात्मा नाम्ना ऊर्जस्तु जशिवान् ।
 ऊर्जस्य संभवः पुत्रो यस्य जज्ञे स वीर्यवान् ॥ ६६ ॥ शकले द्वे
 स वै जातो जरया सन्धितः सुतः । जरया सन्धितो यस्माज्ज-
 रासन्धस्ततः स्मृतः ॥ ६७ ॥ सर्वज्ञस्य जेताऽसौ जरासन्धो
 महाबलः । जरासन्धस्य पुत्रो वै सहदेवः प्रतापवान् ॥ ६८ ॥
 सहदेवात्मजः श्रीमानुदायुः स महायशाः । उदायुर्जनयागास पुत्रं
 परमधार्मिकम् ॥६९॥ ध्रुवधर्मेति नामानं मगधान् योऽनसद्विभुः ।
 परीक्षितस्तु दायादो धार्मिको जनमेजयः ॥१००॥ जनमेजयस्य
 दायादास्य एव महारथाःश्रुतसेनोऽसेनौ च भीमसेनश्च नामतः १
 एते सर्वे महाभागा विक्रान्ता बलशालिनः । जनमेजयस्य पुत्रौ
 तु सुरथो मतिमांस्तथा ॥ १०२ ॥ सुरथस्य तु विक्रान्तः पुत्रो

कामी सत्यहित कहलाता है ॥ ६५ ॥ उसका पुत्र धर्मात्मा हुआ
 उसका नाम ऊर्ज था ऊर्जके बृहद्रथोपनामक संभव नामका पुत्र
 हुआ उसके वीर्यवान् (जरासंध) उत्पन्न हुआ था ॥ ६६ ॥
 वह पुत्र पहिले दो स्वर्गदोंमें उत्पन्न हुआ था उसको जराने
 मिला दिया था, उसको जरा रान्तसीने मिला दिया था, इससे
 वह जरासंध कहलाता था ॥ ६७ ॥ उस महाबली जरासंधने
 सम्पूर्ण क्षत्रियोंको जीत लिया था, जरासंधका पुत्र प्रतापी सह-
 देव था ॥ ६८ ॥ सहदेवके महायशस्वी उदायु नामक पुत्र हुआ,
 उदायुने श्रुतधर्मा नाम वाले परम धार्मिक पुत्रको उत्पन्न किया
 वह प्रभु मगधदेशमें रहा था (कुरुके दूसरे पुत्र) परीक्षितके जन-
 मेजय नामक धार्मिक पुत्र हुआ ॥ ६९ ॥ १०० ॥ जनमेजयके
 श्रुतसेन उग्रसेन और भीमसेन नामक तीन महारथी पुत्र उत्पन्न
 हुए ॥ १०१ ॥ ये सब महाभाग्यवान् पराक्रमी और बलवान्
 थे, जनमेजयके सुरथ और मतिमान् नामक पुत्र हुए १०२ सुरथ

निर्णेषितम् । तस्यान्ववायः सुमहांस्तस्य नाम्ना स्थ कौरवाः ८७
 कुरोश्च पुत्राश्चत्वारः सुधन्वा सुधनुस्तथा । परिञ्चित्च महाबाहुः
 गवरश्चारिमेजयः ॥ ८८ ॥ सुधन्वनस्तु दायादः सुहोत्रो मतिमां-
 स्ततः । च्यवनस्तस्य पुत्रस्तु राजा धर्मार्थकोविदः ॥ ८९ ॥ च्यव-
 नात् कृतयज्ञस्तु इष्टा यज्ञैः स धर्मवित् । विश्रुतं जनयामास पुत्र-
 गिन्द्रसमं नृपः ॥ ९० ॥ चैद्योपरिचरं वीरं वसुं नामान्तरित्त-
 गम् । चैद्योपरिचराज्जज्ञे गिरिका सप्त मानवान् ॥ ९१ ॥ महा-
 रथो मगधराट् विश्रुतो यो बृहद्रथः । प्रत्यग्रहः कुशश्चैव यमाहु-
 र्मणिवाहनम् ॥ ९२ ॥ मारुतश्च यदुश्चैव मत्स्यः काली च सत्तमः ।
 बृहद्रथस्य दायादः कुशाग्रो नाम विश्रुतः ॥ ९३ ॥ कुशाग्रस्या-
 त्मजो विद्वान् वृषभो नाम वीर्यवान् । वृषभस्य तु दायादः पुष्प-

उसीके नामसे तुम कौरव कहताते हो ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ कुरुके
 सुधन्वा सुधनु महाबाहु परीक्षित और उत्कृष्ट अरिमेजय नाम
 वाले चार पुत्र हुए ॥ ८८ ॥ सुधन्वाका सुहोत्र नामक बुद्धिमान्
 पुत्र हुआ उसका पुत्र धर्म और अर्थमें कुशल च्यवन हुआ ८९
 च्यवनसे कृतयज्ञ हुआ उस धर्मात्मासे यज्ञ करे उस यज्ञ करने
 वालेने इन्द्रकी समान प्रसिद्ध अन्तरित्तचारी चैद्य उपरिचर वसु
 नामक पुत्रको उत्पन्न किया उस उपरिचर चैद्यसे गिरिकाने
 सात मानवीसन्तानोंको उत्पन्न किया ॥ ९० ॥ ९१ ॥ (उनके
 नाम इस प्रकार हैं, एक) महारथी मगधराज वह बृहद्रथ नाम
 से प्रसिद्ध है (दूसरा) प्रत्यग्रह और (तीसरा) कुश इनको
 मणिवाहन भी कहते हैं (चौथा) मारुत (पाँचवाँ) यदु और
 मत्स्य (अर्थात् मत्सीके पाससे छठी) काली सत्यवती और
 (सातवा) पुत्र सत्तम, बृहद्रथका पुत्र कुशाग्र नामसे प्रसिद्ध
 है ॥ ९२-९३ ॥ वीर्यवान् विद्वान् वृषभ कुशाग्रका पुत्र हुआ ९४
 वृषभका पुष्पवान् नामक धार्मिक पुत्र हुआ उसका पुत्र परा-

वान्नाम धार्मिकः । दायादस्तस्य विक्रान्तो राजा सत्यहितः
 स्मृतः ॥६५॥ तस्य पुत्रः स धर्मात्मा नाम्ना ऊर्जस्तु जज्ञिवान् ।
 ऊर्जस्य संभवः पुत्रो यस्य जज्ञे स वीर्यवान् ॥ ६६ ॥ शकले द्वे
 स वी जातो जरया सन्धितः सुतः । जरया सन्धितो यस्वाञ्ज-
 रासन्धस्ततः स्मृतः ॥ ६७ ॥ सर्वज्ञस्य जेनाऽसौ जरासन्धो
 महाबलः । जरासन्धस्य पुत्रो वी सद्देवः प्रतापवान् ॥ ६८ ॥
 सहदेवात्मजः श्रीमानुदायुः स महायशाः । उदायुर्जनयामास पुत्रं
 परम धार्मिकम् ॥६९॥ श्रुतधर्मेति नामानं मगधान् योऽत्रसद्विभुः ।
 परीक्षितस्तु दायादो धार्मिको जनमेजयः ॥१००॥ जनमेजयस्य
 दायादास्य एव महारथाः श्रुतसेनोऽसेनौ च भीमसेनश्च नामतः १
 एते सर्वे महाभागा विक्रान्ता बलशालिनः । जनमेजयस्य पुत्रौ
 तु सुरथो गतिर्मास्तथा ॥ १०२ ॥ सुरथस्य तु विक्रान्तः पुत्रो
 प्रभी सत्यहित रुहलाता है ॥ ६५ ॥ उसका पुत्र धर्मात्मा हुआ
 उसका नाम ऊर्ज था ऊर्जके बृहद्रथोपनामक संभव नामका पुत्र
 हुआ उसके वीर्यवान् (जरासंध) उत्पन्न हुआ था ॥ ६६ ॥
 वह पुत्र पहिले दो स्वर्गदोंमें उत्पन्न हुआ था उसको जराने
 मिला दिया था, उसको जरा राक्षसीने मिला दिया था, इससे
 वह जरासंध कहलाता था ॥ ६७ ॥ उस महाबली जरासंधने
 सम्पूर्ण क्षत्रियोंको जीत लिया था, जरासंधका पुत्र प्रतापी सह-
 देव था ॥ ६८ ॥ सहदेवके महायशस्वी उदायु नामक पुत्र हुआ,
 उदायुने श्रुतधर्मा नाम वाले परम धार्मिक पुत्रको उत्पन्न किया
 वह प्रभु मगधदेशमें रहा था (कुरुके दूसरे पुत्र) परीक्षितके जन-
 मेजय नामक धार्मिक पुत्र हुआ ॥ ६९ ॥ १०० ॥ जनमेजयके
 श्रुतसेन उग्रसेन और भीमसेन नामक तीन महारथी पुत्र उत्पन्न
 हुए ॥ १०१ ॥ ये सब महाभाग्यवान् पराक्रमी और बलवान्
 थे, जनमेजयके सुरथ और गतिमान् नामक पुत्र हुए १०२ सुरथ

जज्ञे विदूरथः । विदूरथस्य दायद ऋत्त एव महारथः ॥ १०३ ॥
 द्वितीयः स वभौ राजा नाम्ना तेनैव संज्ञितः । द्वात्रिंशो तव वंशो-
 ऽस्मिन् द्वावेव तु परित्तिता ॥ ४ ॥ भीमसेनास्त्रयो राजन् द्वावेव
 जनमेजयो । ऋत्तस्य तु द्वितीयस्य भीमसेनोऽभवत् सुतः ॥ ५ ॥
 प्रतीपो भीमसेनस्य प्रतीपस्य तु शन्तनुः । देवापिर्वाल्हिकरचैव
 सोमदत्तो महारथः ॥ ६ ॥ शन्तनोः प्रसवस्त्वेप यत्र जातोऽसि
 पार्थिव । वाल्हीकस्य तु राज्यं वै सप्तवाहं नरेश्वर ॥ ७ ॥

के विदूरथ नामक विद्वान् पुत्र हुआ विदूरथके ऋत्त नामक महा-
 रथी पुत्र हुआ ॥ १०३ ॥ वह राजा (कुरुके पितामह ऋत्तसे)
 दूसरा था और वह उसके नामसे ही शोभा पारहा था, तेरे
 वंशमें दो ऋत्त हुए हैं और दो ही परित्तित हुए हैं ॥ १०४ ॥
 तीन भीमसेन और हे राजन् ! दो जनमेजय हुए हैं, दूसरे ऋत्तके
 भीमसेन नामक पुत्र हुआ ५ भीमसेनके प्रतीप हुआ और प्रतीपके
 शन्तनु हुआ तथा देवापि वाल्हीक और सोमदत्त नामक पुत्र भी
 हुए हे पार्थिव ! तुम जिनमें हुए हो वह शन्तनुकी सन्ताने हैं, हे
 नरेश्वर वाल्हीकका राज्य सप्तवाह था अर्थात् सात प्रकारकी
 प्राप्तिसे अलग था (वह प्राप्तिसे इस प्रकार है—“ज्ञाने धर्म बले कामे
 विज्ञानोपायसंग्रहे । मदर्थे भूभुजां नित्यं प्राप्तिः सप्तविधा मता-
 शास्त्रीयज्ञान, धर्म, काम, युक्ति कौशल आदि विज्ञान, उपायोंका संग्रह
 और चन्दन ताम्बूल आदि शारीरिक भोग ये राजाओंकी छः
 प्रकारकी प्राप्तिसे मानी गई है, दूसरे कहते हैं कि-उसका राज्य सप्त
 गणोंसे अर्थात् सात रत्न और सात महारत्नोंसे शून्य था। इन
 चौदह रत्नोंका शास्त्रोंमें इस प्रकार वर्णन किया है, कि—“गज-
 वाजिरथास्त्रेषुनिविमालाम्बरद्रुमाःशक्तिः सासिर्मणिच्छत्रविपा-
 नानि चतुर्दश । अर्थात् हाथी घोड़े रथ अस्त्र खजाना माला

वाल्मिकस्य सुतरश्चैव सोमदत्तो महायशाः । जज्ञिरे सोमदत्तात्तु
भूरिभूरिश्रवाः शलः ॥ ८ ॥ उपाध्यायस्तु देवानां देवापिरभव-
न्मुनिः । च्यवनस्य कृतः पुत्र इष्टश्चासीन्महात्मनः ॥ ९ ॥ शन्तनु-
स्त्वभवद्राजा कौरवाणां धुरन्धरः । शन्तनोः संपन्नदयामि यत्र
जातोऽसि पार्थिव ॥ ११० ॥ गांगं देवव्रतं नाम पुत्रं सोऽजनयत्
प्रभुः । स तु भीष्म इति ख्यातः पाण्डवानां पितामहः ॥ ११ ॥
काली विचित्रवीर्यं तु जनयामास भारत । शन्तनोर्दयितं पुत्रं
धर्मात्मानमकल्पयत् ॥ १२ ॥ कृष्णद्वैपायनश्चैव क्षेत्रे वैचित्र-
वीर्यके । धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनत् ॥ १३ ॥
धृतराष्ट्रश्च गान्धारी पुत्रानुत्पादयच्छतम् । तेषां दुर्योधनः श्रेष्ठः
सर्वेषामेव स प्रभुः ॥ १४ ॥ पाण्डोधनञ्जयः पुत्रः सौभद्रस्तस्य

वाण ये चौदह रत्न कहलाते है) ॥ १०७ ॥ बाल्मीकके सोम-
दत्त नामक महायशस्वी पुत्र हुआ सोमदत्तके भूरि भूरिश्रवा
शल नामक पुत्र हुए ॥ १०८ ॥ मुनि देवापि देवताओंके उपा-
ध्याय होगए थे उन्होंने यज्ञ करके महात्मा च्यवनके पुत्रको
उत्पन्न किया था ॥ १०९ ॥ शन्तनु कौरवोंका धुरन्धर राजा
हुआ है पार्थिव ! तुम जिसके यहाँ उत्पन्न हुए, हो, उस शन्तनु
के (वराजोंको) मैं अब कहना हूँ ॥ ११० ॥ उस प्रभुने देव-
व्रत नामक मांगेय पुत्र को उत्पन्न किया, यह पाण्डवोंके पिता-
मह भीष्म नामसे मसिद्ध थे ॥ १११ ॥ हे भारत ! कालीने शन्तनु
के प्यारे पुत्र निष्पाप धर्मात्मा विचित्रवीर्यको उत्पन्न किया
था ॥ १२ ॥ मुनि कृष्णद्वैपायनने विचित्रवीर्यके क्षेत्रमें धृतराष्ट्र
पाण्डु और विदुरको उत्पन्न किया था १३ धृतराष्ट्रने गान्धारी
में सौ पुत्रोंको उत्पन्न किया था उनमें दुर्योधन श्रेष्ठ था और
यह सबका स्वामी था ॥ १४ ॥ पाण्डुके पुत्र अर्जुन हुए उनके
पुत्र अभिमन्यु हुए और हे जनेश्वर ! तुम्हारे पिता

चात्मजः । अभिमन्योः परित्तित्तु पिता तव जनेश्वर ॥ १५ ॥
 एष ते पौरवो वंशो यत्र जातोऽसि पार्थिव । तुर्वसोस्तु प्रवक्ष्यामि
 द्रुह्योश्चानोर्यदोस्तथा ॥ १६ ॥ सुतस्तु तुर्वसोर्वन्दिहर्वन्हेर्गोभानु-
 रात्मजः । गोभानोस्तु सुतो राजा त्रैसानुरपराजितः ॥ १७ ॥
 करन्यमस्तु त्रैसानोर्मरुत्तस्तस्य चात्मजः । अन्यस्त्वावीक्षितो
 राजा मरुत्तः कथितस्तव ॥ १८ ॥ अनपत्योऽभवद्राजा यज्वा
 विपुलदक्षिणः । दुहिता सम्मता नाम तस्यासीत् पृथिवीपतेः १९
 दक्षिणार्थं स्म वै दत्ता संवर्ताय महात्मने । दुष्यन्तं पौरवं चापि
 लेभे पुत्रमकन्मपम् ॥ २० ॥ एवं ययातेः शापेन जरासंक्रमणे
 तदा । पौरवं तुर्वसोर्वंशः प्रविशेश नृपोचम ॥ २१ ॥ दुष्यन्तस्य
 तु दायादः करुत्थामः प्रजेश्वरः । करुत्थामात्तथाक्रीडश्चत्वार-

परीक्षित अभिमन्युके पुत्र हुए ॥ ११५ ॥ यह तुमसे पौरव
 वंश कह दिया, कि-हे पार्थिव ! जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो,
 अब मैं तुर्वसु द्रुह्यु अनु और यदुके वंशको कहता हूँ ॥ ११६ ॥
 तुर्वसुके वन्दि नामक सुत हुआ वन्दिके गोभानु नामक पुत्र हुआ
 गोभानुका पुत्र किसीसे 'पराजय न पाने वाला त्रैभानु हुआ,
 करंधमके त्रैसानु हुआ उसका पुत्र मरुत्त हुआ मैंने तुम्हसे पहिले
 जो मरुत्तका वर्णन किया था वह मरुत्त दूसरा है और वह अवि-
 क्षित्क पुत्र है ॥ १८ ॥ वह राजा निःसन्तान था अर्थात् उस
 के कोई पुत्र सन्तान नहीं, थी और उस राजाकी सम्मता नाम
 वाली पत्नी थी ॥ १९ ॥ उन्होंने उनको (अपने अश्वत्विज)
 सम्वर्तको दक्षिणामें देदिया था (संवर्तने उसको दुष्यन्तके पिता
 सुयं र नामक पौरववंशीको देदिया था) तहाँ पर उसने पौरव-
 वंशी निष्पाप दुष्यन्तको (पाया) उत्पन्न किया था ॥ २० ॥
 इस प्रकार जरासंक्रणके समय ययातिके शाप देनेके अनन्तर
 तुर्वसुका वंश पौरववंशमें लीन होगया था ॥ २१ ॥ दुष्यन्तका

स्तस्य चात्मजाः ॥ १२२ ॥ पाण्ड्यश्च केरलश्चैव कोलरचो-
 लश्च पार्थिवः । तेषां जनपदाः स्फीताः पाण्ड्याश्चोलाः स
 केरलाः २ द्रुह्योश्च तनयो राजन्-बभ्रुः सेतुश्च पार्थिवः । अङ्गार-
 सेतुस्तत्पुत्रो मरुताम्पतिरुच्यते ॥ २४ ॥ यौवनाश्वेन समरे कुच्छ्रेण
 निहतो बली । युद्धं सुमहदस्यासीन्मासान् परिचतुर्दश ॥ २५ ॥
 अङ्गारस्य तु दायादो गान्धारो नाम भारत । ख्यायते तस्य
 नाम्ना वै गान्धारविभयो महान् ॥ २६ ॥ गान्धारविषयाश्चैव
 तुरङ्गा वाजिनां घराः । अनोस्तु पुत्रो धर्मोभूत् घृतस्तस्यात्मजो-
 ऽभवत् ॥ २७ ॥ घृतात्तु दुदुहो जज्ञे प्रचेतास्तस्य चात्मजः ।
 प्रचेतसः सुचेतास्तु कीर्तिता ह्यानवो मया ॥ २८ ॥ यदोर्वेशं
 प्रवक्ष्यामि ज्येष्ठस्योत्तमतेजसः । विस्तरेणानुपूर्व्यात्तु गदतो मे
 निशामय ॥ १२६ ॥

पुत्र करुथाम प्रजाधीश हुआ करुथामके आक्रीड़ हुआ उसके
 पाण्ड्य केरल कोल और राजा चोल इस प्रकार चार पुत्र हुए,
 उनके विस्तृत देश पाण्ड्य चोल और केरल हुए ॥ १२२ ॥ १२३ ॥
 हे राजन् ! द्रुह्यके बभ्रुसेतु नामक पार्थिव पुत्र हुआ उसका पुत्र
 अङ्गारसेतु हुआ वह मरुत्पति कहलाता है ॥ १२४ ॥ युवनाश्वका
 पुत्र राजा गान्धाता उसको बड़ी कठिनतासे मार सका था, उसने
 चौदह मास तक घोर युद्ध किया था ॥ १२५ ॥ हे भारत !
 अङ्गारके गान्धार नामक पुत्र हुआ उसके नामसे ही गान्धार देश
 गान्धार कहलाता है ॥ १२६ ॥ गान्धारदेशके घोड़े घोड़ोंमें अच्छे
 होते हैं, अनुके धर्म नामक पुत्र हुआ उसका पुत्र घृत हुआ १२७
 घृतके दुदुह नामक पुत्र हुआ उसका पुत्र प्रचेता हुआ, प्रचेताके
 सुचेता हुआ, यह मैंने तुम्हसे अनुके वंशजोंका वर्णन कर
 दिया ॥ १२८ ॥ अब मैं उत्तम यश वाले यदुके कुलको कहता
 उसको तू क्रमशः और विस्तारपूर्वक सुन ॥ १२६ ॥ ॥ ३२ ॥

वैशम्पायन उवाच । बभूवुस्तु यदो पुत्राः पंच देवसुतोपमाः ।
 सहस्रदः पयोदश्च क्रोष्टा नोलोञ्जिरुस्तथा ॥ १ ॥ सहस्रदस्य
 दायादास्त्रयः परमधार्मिकाः । हैहयश्च हयश्चैव राजन् वेणु-
 हयस्तथा ॥ २ ॥ हैहयस्याभवत् पुत्रो धर्मनेत्र इति स्मृतः । धर्म-
 नेत्रस्य कार्तस्तु साहंजस्तस्य चात्मजः ॥ ३ ॥ साहंजनी नाम
 पुरी येन राज्ञा निवेशिता । साहंजस्य तु दायादो महिष्मान्नाम
 पार्थिवः ॥ ४ ॥ महिष्मती नाम पुरी येन राज्ञा निवेशिता ।
 आसीन्महिष्मतः पुत्रो भद्रश्रेयाः प्रतापवान् ॥ ५ ॥ वाराणस्य-
 धिपो राजा कथितः पूर्वमेव तु । भद्रश्रेयस्य पुत्रस्तु दुर्दमो नाम
 विश्रुतः ॥ ६ ॥ दुर्दमस्य सुतो धीमान् कनको नाम वीर्यवान् ।
 कनकस्य तु दायादाश्चत्वारो लोकविश्रुताः ॥ ७ ॥ कृतवीर्यः
 कृतौजाश्च कृतवर्मा तथैव च । कृताग्निस्तु चतुर्थोऽभूत् कृतवीर्या-
 चतार्जुनः ॥ ८ ॥ यस्तु बाहुसहस्रेण सप्तदाप्सेवरोभवत् । जिगाय

वैशम्पायनजीने कहा, कि-यदुके देवपुत्रोंकी समान सहस्रद-
 पयोद क्रोष्टा नील और अञ्जिक नामक पाँच पुत्र उत्पन्न हुए
 थे ॥ १ ॥ सहस्रदके हैहय हय और वेणुहय नामक परम-
 धार्मिक पुत्र हुए थे ॥ २ ॥ हैहयके जो पुत्र हुआ वह धर्मनेत्र
 कहलाता है, धर्मनेत्रके कार्त नामक पुत्र हुआ उसका पुत्र सहस्रद
 हुआ ॥ ३ ॥ उस राजाने साहंजनी नामकी पुरी बसाई थी,
 साहस्रदके महिष्मान् नामक राजा पुत्र हुआ ॥ ४ ॥ उस राजा
 ने महिष्मती नाम वाली पुरी बसाई थी, महिष्मान्के भद्रश्रेयस्य
 नामक प्रतापी पुत्र हुआ ॥ ५ ॥ वह राजा वाराणसीका स्वामी
 था यह बात पहिले ही कह दी है, भद्रश्रेयस्यका पुत्र दुर्दम नामसे
 प्रसिद्ध था ॥ ६ ॥ दुर्दमका पुत्र वीर्यवान् और बुद्धिमान् कनक
 था, कनकके संसारमें प्रसिद्ध कृतवीर्य कृतौजा कृतवर्मा और
 चौथा कृताग्नि इस प्रकार चार पुत्र थे, कृतवीर्यके अर्जुन नामक

पृथिवीमेको रथेनादित्यवर्चसा ॥ ६ ॥ स हि वर्षायुतं तप्त्वा
 तपः परमदुरचरम् । दत्तमाराधयामास कीर्तवीर्योऽत्रिसंभवम् १०
 तस्मै दत्तो वंरान् मादाच्चतुरो भूरितेजसः । पूर्वं बाहुसहस्रान्तु
 पार्थितं सुमहद्वरम् ॥ ११ ॥ अस्मै वर्तमानस्य सन्निस्तत्र निवा-
 रणम् । उग्रेण पृथिवीं जित्वा स्वधर्मेणानुरंजनम् ॥ १२ ॥ संग्रा-
 मान् सुबहून् कृत्वा हत्वा चारीन् सहस्रशः । संग्रामे वर्तमानस्य
 वधं चाप्यधिकाद्रणे ॥ १३ ॥ तस्य बाहुसहस्रान्तु युध्यतः किलः
 भारत । योगाद्योगेश्वरस्येव मादुर्भवति मायया ॥ १४ ॥ तेनेयं
 पृथिवीं सर्वां सप्तद्वीपा सप्ततना । सप्तसमुद्रा सप्तनगरा उग्रेण
 विधिना जिता ॥ १५ ॥ तेन सप्तसु द्वीपेषु सप्त यज्ञशतानि वै ।

पुत्र हुआ ॥ ७-८ ॥ वह अपनी सहस्र भुजाओं (केवल)
 से सातों द्वीपोंका ईश्वर होगया था उस अकेलेने ही सूर्यकी
 समान कान्तिमान् रथमें बैठ कर पृथ्वीको जीत लिया था । ६।
 उस कृतवीर्यके पुत्र अर्जुनने एक अपुत वर्ष तक परम दुष्कर
 तप करके अत्रि ऋषिसे उत्पन्न हुए दत्तात्रेयकी उपासना की
 थी ॥ १० ॥ दत्तात्रेयजीने उसको चार अति यश देने वाले वर
 दिये थे, पहिले उसका माँगा हुआ सौ भुजा होनेका वरदान
 दिया ॥ ११ ॥ और अधर्ममें प्रवृत्त होने पर सज्जनोंके निवृत्त
 करनेका वर दिया, और उग्रतासे पृथ्वीको जीत कर उसका
 तत्रिपधर्मानुसार रञ्जन करनेका वर दिया ॥ १२ ॥ और
 बहुतसे संग्रामोंको कर तथा सहस्रों शत्रुओंको मार कर संग्राम
 करते-रक्षणसे अधिक बली पुरुषसे मरण दिया १३ हे भारत! जब
 वह युद्ध करता था उस समय योगके द्वारा योगेश्वरकी समान
 मायासे उसके सहस्र भुजाएँ उत्पन्न होजातीथीं ॥ १४ ॥ उसने
 उग्रविधिसे सातों द्वीप और नगर वाली तथा समुद्र और
 पत्तनों वाली पृथ्वीको जीत लिया था ॥ १५ ॥ हे जन्मजय !

प्राप्तानि विप्रिना राजा श्रुयन्ते जनमेजय ॥ १६ ॥ सर्वे यज्ञा
महावाहोस्तस्यासन् भूरिदक्षिणाः सर्वे कांचनयूपाश्च सर्वे कांचन-
वेदयः ॥ १७ ॥ सर्वेर्देवैर्महाराज विमानस्थैरलंकृताः । गन्धर्व-
रप्सरोभिश्च नित्यमेवोपशोभिताः ॥ १८ ॥ यस्य यज्ञे जगौ गाथां
गन्धर्वो नारदस्तथा । वरीदासात्मजो विद्वान् महिम्ना तस्य
विस्मितः ॥ १९ ॥ नारद उवाच । न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं
यास्यन्ति पार्थिवाः । यज्ञैर्दानैस्तपोभिर्वा विक्रमेण श्रुतेन च २०
स हि सप्तसु द्वीपेषु खड्गी चर्मा च शरासनी । रथी द्वीपाननु-
चरन् योगी संदृश्यते नृभिः ॥ २१ ॥ अनष्टद्रव्यता चैव न शोको
न च विभ्रमः । प्रभावेन महाराज्ञः प्रजा धर्मेण रत्नतः ॥ २२ ॥

यह सुना जाता है, कि-उस राजाने सातों द्वीपोंमें शास्त्रानुसार
सात सौ यज्ञ किये थे ॥ १६ ॥ उस महाबाहुके सब यज्ञोंमें बहुत
सी दक्षिणायें दी गई थीं और सब यज्ञोंमें सुवर्णके स्तंभ और
वेदिये बनाई गई थी ॥ १७ ॥ और हे महाराज ! उसके सब
यज्ञ विमानोंमें ओठे हुए देवताओंसे अलंकृत रहते थे और उसके
सब यज्ञ गन्धर्व और अप्सराओंसे सुशोभित रहते थे ॥ १८ ॥
उसके यज्ञमें उसकी महिमासे विस्मय होकर वरीदास गन्धर्व
के विद्वान् पुत्र गन्धर्वने और नारदजीने गाथाएँ गाई थीं १९
नारदजीने कहा था, कि-राजे यज्ञ दान तप और स्वाध्यायमें
कार्तवीर्य अर्जुनकी समान कभी नहीं होसकेंगे और न उसकी
गतिको पामकेंगे ॥ २० ॥ मनुष्य उस योगीको (योगके
कायव्यूहके कारण) सातों ही द्वीपोंमें ढाल तलवार तूणीरको
धागण कर रथमें बैठ कर घूमता हुआ देखते थे ॥ २१ ॥ उस
महाराजके धर्मानुसार प्रजा रक्षण करनेके प्रभावसे उसका द्रव्य
कभी निरडता नहीं था और उसको न कभी शोक होता था
और न कभी विभ्रम होता था ॥ २२ ॥ वह राजा पिनासी

पञ्चाशीतिसहस्राणि वर्षाणां वै नराधिपः । स सर्वरत्नभाङ्क
सम्राट् चक्रवर्ती बभूव ह ॥ २३ ॥ स एव यज्ञपालोऽभूत् क्षेत्र-
पालः स एव चास एव दृष्ट्या पर्जन्यो योगित्वादर्जुनोऽभवत् २४
स वै बाहुसहस्रेण ज्यायातकाठनत्वचा । भाति रश्मिसहस्रेण
शरदीय दिवाकरः ॥ २५ ॥ स हि नागान् मनुष्येषु माहिषमत्यां
महाद्युतिः । कर्कोटकसुतान् जित्वा पुष्या तस्यां न्यवेशयत् २६
स वै वेगं समुद्रस्य प्रावृत्कालेऽभ्युज्ज्वलणः । क्रीडन्निव भुजो-
द्भिन्नं पतिस्रोतश्चकार ह ॥ २७ ॥ लुपिठता क्रोडिता तेन फेन-
सूदाममालिनी । चलदूमिसहस्रेण शंकिताऽभ्येति नर्मदा २८
तस्य बाहुसहस्रेण लुभ्यमाणे महीदधौ भयान्निर्लीना निश्चेष्टाः
वर्षं तक सव रत्नोंको भोगने वाला चक्रवर्ती सम्राट रहा था २३
वह अर्जुन योगी होनेके कारण स्वयं यज्ञपाल(पञ्चमान) होता
था और स्वयं ही क्षेत्रपाल होता था और वर्षा कर स्वयं ही
पर्जन्य होजाता था अर्थात् वह योगके प्रभावसे एक शरीरसे यज्ञ
करता रहता था तो दूसरे-शरीरसे मजापालन करता रहता था २४
वह राजा मृत्युआका आघात पड़नेसे कड़ी पड़ी हुई खाल वाले
सहस्र हाथोंके कारण शम्भु ऋतुके सहस्र किरणों वाले सूर्यकी
समान दिपता रहता था ॥ २५ ॥ उस महाकन्तिमान् राजाने
कर्कोटक नागके पुत्र सर्पोंके जीत कर अपनी पुरीमें मनुष्योंके
साथ वसा दिया था ॥ २६ ॥ उस कमलनेत्रने भुजाओंसे क्रीड़ा
कर वर्षाकालके समुद्रके मचाहको उलटा बहा दिया था ॥ २७ ॥
उसके द्वारा आलोडनं की हुई और क्रीडाके समय रमाई हुई
फेनरूपी मालाके डोरेकी माला वाली नर्मदा अपनी लहरे मारती
हुई बीचियोंसे (परपुरुषके भोगनेके बाद) शंकित सी होती हुई
(अपने पति समुद्रके पास) जाती थी २८ जब समुद्र उसकी सहस्र
भुजाओंसे च्युन्व होने लगा तब पातालवासी बड़े-रान्तस भयके

पातालस्था महासुराः ॥ २९ ॥ चूर्णीकृतमहावीचिं चलन्मीन-
महातिमिम् । मारुताद्विद्धफेनौघमावर्तन्नोभदुःसहम् ॥ ३० ॥
मावर्तयत्तदा राजा सहस्रेण च बाहुना । देवासुरसमाक्षिप्तः
क्षीरोदमिव मन्दरः ॥ ३१ ॥ मन्दरक्षोभचकिता अमृतोद्भव-
शंकिताः । सहस्रोत्पतिता भीमा भीमं दृष्ट्वा तृपोत्तमम् ॥ ३२ ॥
नतानिश्चलमूर्धानो बभूवुभ्ते महोरगाः । सायान्हे कदलीखण्डे
कम्पितास्तस्य वायुना ॥ ३३ ॥ स त्रै वध्वा धनुर्व्याभिरुत्सिक्तं
पंचभिः शरैः । लंकेशं मोहयित्वा तु सवलं रावणं वलात् ।
निर्जित्यैनं समानीय माहिष्मत्यां वयन्ध तम् ॥ ३४ ॥ श्रुत्वा

कारण अपने (अंगोंको) सकोड़ कर निरवेष्ट हों होगए २९
उस राजाने नर्मदाकी बड़ी २ वीचियों (लहरों) का चूरा कर
डाला और (उस राजासे घबड़ा कर) उस नदीकी तिमि(हेल
मछली) और मीन इधर उधर भागने लगे थे (उसके भुजाओं
की) वायुसे नर्मदा नदीके भागोंके टुकड़े २ उड़ने लगे और
उसमें क्षोभके कारण दुःसह भ्रमर पड़ने लगे वह राजा अपनी
सहस्र भुजाओंसे नर्मदाको मन्दराचलके समुद्रको विलोड़नेकी
समान विलोड़ने लगा ३०-३१ मन्दराचल रूपी उस राजाके
क्षोभसे चकित हुए निश्चल पस्तक वाले सर्प कहीं अमृत तो नहीं
रहा है यह शंका कर ऊपरको मस्तक उठाते हुए निकल आये
परन्तु उस राजाको देखकर अपने मस्तकको नीचेको करके [फिर
जलमें घुप गए] वे सर्प उसकी भुजाओंकी वायुसे कम्पित होते
हुए कदलीव्रममें सायंकालके समय निकले थे । ३२ । ३३ ।
कार्तवीर्य अर्जुनने रावणको पाँच बाण मार कर लोह
लुहान कर दिया था इस प्रकार रावणको मूर्छित सा करनेके
बाद वह उसको और उसकी सेनाको धनुषकी डोरियोंसे बाँध
कर उनको बलपूर्वक अपनी माहिष्मती नगरीमें ले आया और

तु यद्दं पौलस्त्यं रावणं त्वर्जुनेन तु । ततो गत्वा पुलस्त्य-
स्तमर्जुनं ददृशे स्वयम् । मुमोच रत्नः पौलस्त्यं पुलस्त्येनानु-
याचितः ॥३५॥ यस्य बाहुसहस्रस्य वभूव ज्यातलस्वनः । युगाते
त्वंबुदस्येव स्फुटनो हशनेरिव-॥ ३६ ॥ अहो यत मृषे वीर्य
भार्गवस्य यदच्छिनत् । राज्ञो बाहुमहसून्तु हैमं तालवनं यथा ३७
तृपितेन कदाचित् स भिन्नितश्चित्रभानुना । स भिन्नामददाद्वीरः
सप्तद्वीपान् विभावसोः ॥ ३८ ॥ पुराणि ग्रामघोषांश्च विषयांश्चैव
सर्वशः । जज्वाल तस्य सर्वाणि चित्रभानुर्दिभक्त्या ॥ ३९ ॥ स
तस्य पुरुषेद्रस्य प्रभानेन महात्मनः । ददाह कार्तवीर्यस्य शैलां-
श्चैव वनानि च ॥४०॥ स शून्यपाश्रमं रम्यं वरुणस्यात्मजस्य
वै । ददाह वनवद्भीतश्चित्रभानुः सर्वहयः ॥ ४१ ॥ यं लेभे
उनको माहिष्मती नगरीमें बाँध कर डाल दिया था ॥३३॥३४॥
पुलस्त्य मुनिने जब यह सुना कि-अर्जुनने रावणको बंधनमें डाल
दिया है, तब वह अपने आप अर्जुनके पास गए और [रावणको
तहाँ गंधे हुए]देखा, इसको उपरान्त पुलस्त्य मुनिके याचना करने
पर सहस्रबाहुने उस पुलस्त्यवंशी राज्ञसको छोड़ दिया था ३५
उसको सहस्र भुजाओंसे धनुषकी प्रत्यश्वाका शब्द मलयके बादल
और कड़कते हुए वज्रकी समान होता था ३६ भृगुवंशी परशुराम
के वीर्यको धन्य है, कि-उन्होंने युद्धमें राजा अर्जुनकी सहस्र
भुजाओंको तालके वनकी समान काट डाला था ३७ एक समय
पितासे चित्रभानुने उससे भिन्ना भोगी तब उस वीरने, अग्निको
सार्तो द्वीप दक्षिणामें देदिये थे ३८ तब चित्रभानु भस्म करनेकी
इच्छासे उसके नगर ग्राम घोष और राज्यको भस्म करने लगे
अग्नि पुरुषोंमें इन्द्रकी समान महात्मा कार्तवीर्यके प्रभावसे पर्वत
और वनोंको भस्म करने लगे ४०- राजा हैहयकी सहायतासे
अग्निने वरुणपुत्र वसिष्ठजीके सुने पड़े हुए आश्रमको भी [वन

वरुणः पुत्रं पुरा भावन्तमुत्तमम् । वसिष्ठं नाम स मुनिः ख्यात
 आपव इत्युत ॥ ४२ ॥ यत्रापवस्तु तं क्रोधाच्छप्तवानजुनं विभुः ।
 यस्मान्नावर्जितमिदं वनं ते मम हैहय ॥ ४३ ॥ तस्मात्ते दुष्करं
 कर्म कृतमन्यो हनिष्यति । रामो नाम महाबाहुर्जामदग्न्यः प्रताप-
 वान् ॥ ४४ ॥ द्धित्वा बाहुसहस्रान्ते प्रमथ्य तरसा वली । तपस्वी
 ब्राह्मणश्च त्वां वधिष्यति स भार्गवः ॥ ४५ ॥ वैशम्पायन उवाच ।
 अनष्टद्रव्यता यस्य वभूदामित्रकर्शन । प्रभावेन नरेन्द्रस्य प्रजा
 धर्मेण रत्ततः ॥ ४६ ॥ रामात्ततोऽस्य मृत्युर्वै तस्य शापान्मुने
 नृप । वरश्चैप हि कौरव्य स्वयमेव वृतः पुरा ॥ ४७ ॥ तस्य
 पुत्रशतस्यासन् पञ्च शेषा महात्मनः । कृतास्त्रा वलिनः शूरा
 धर्मात्मानो यशस्विनः ॥ ४८ ॥ शूरसेनश्च शूरश्च धृष्णोक्तः
 मे] डरते २ भस्म कर दिया ४१ वरुणने जिस प्रकाशवान् उत्तम
 वसिष्ठ पुत्रको पाया था वह मुनि आपव कहलाते थे ४२ उन विभु
 वरुणपुत्र [आपव] ने क्रोधमें भरकर अर्जुनको शाप दिया कि-
 हे हैहय ! तूने मेरे आश्रमको भी नहीं छोड़ा ४३ इस कारण तेरे
 किये हुए दुष्कर जय आदि कर्मको दूसरा मनुष्य नष्ट कर डालेगा
 अर्थात् तेरा पराजय होगा जमदग्निपुत्र महाभुज प्रतापी परशु-
 राम तपस्वी ब्राह्मण हैं वे वली भार्गव वलपूर्वक तेरी सहस्र
 भुजाओंको काट डालेंगे और तुझे मार डालेंगे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥
 हे अरिर्कर्ण ! जिस नरेन्द्रके यहाँ धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करनेके
 कारण अनष्टद्रव्यता रहती थी अर्थात् धन कभी निचड़ता नहीं
 था हे नृप ! उसकी मृत्यु उन मुनिके शापसे परशुरामजीके हाथसे
 हुई थी, हे कौरव्य ! यह वर उसने पहिले अपने आप भी माँग
 लिया था ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ उस महात्माके अस्त्रविद्याके पार-
 गापी शूरवीर धर्मात्मा और यशस्वी शूरसेन शूर धृष्णोक्त कृष्ण
 और जय वत्त नाम वाले पाँच सुत वचे थे इनमें जयध्वज अबन्ती

कृष्ण एव च जयध्वजश्च नाम्नाऽऽसीदावन्त्यो नृपतिर्महान् ४६
 कार्तवीर्यस्य तनया वीर्यवन्तो महारथाः । जयध्वजस्य पुत्रस्तु
 तालजंघो महाबलः ॥ ५० ॥ तस्य पुत्राः शतं ख्यातास्तालजंघा
 इति श्रुताः । तंषां कुले महाराज हैहयानां महात्मनाम् ॥ ५१ ॥
 चीतिहोत्राः सुगातारश्च भोजारचाङ्गतयः स्मृताः । तौडिकेरा
 इति ख्यातास्तालजंघास्तथैव च ॥ ५२ ॥ भरतश्च सुता जाता
 बहुत्वान्नानुकीर्तिताः । वृषभभृतयो राजन् यादवाः पूर्णकर्मिणः ५३
 वृषो वंशधरस्तत्र तस्य पुत्रोऽभवन्मधुः । मधोः पुत्रशतं त्वासीद्
 वृषणस्तस्य वंशभाक् ॥ ५४ ॥ वृषणाद् वृष्णयः सर्वे मधोस्तु
 माधवाः स्मृताः । यादवा यदुना चाग्रो निरुन्वन्ते च हैहयाः ५५
 शूरश्च शूरवीरश्च शूरसेनास्तथाऽनघ । शूरसेन इति ख्यात-
 स्तस्य देशो महात्मनः ॥ ५६ ॥ न तस्य वित्तनाशोऽस्ति नष्टं
 प्रनिलभेच्च सः । कार्तवीर्यस्य यो जन्म कीर्तयेदिह नित्यशः ५७
 परीक्षा बड़ा भारी राजा था ४८- ४६ ये कार्तवीर्यके सुत बलवान्
 और महारथी थे, जयध्वजके तालजंघ नामक महाबली सुत हुआ,
 उसके सौ सुत थे वे तालजंघ नामसे प्रसिद्ध थे ५२ पुण्य कर्म
 करनेवाले भरतवंशी वृष(पयोद) प्रभृति और भी बहुतसे यादव
 हुए हैं, परन्तु विस्तार भयसे उनका यहाँ वर्णन नहीं किया
 है ॥ ५३ ॥ वृष, वंशधर हुआ उसका सुत मधु हुआ, मधुके
 सौ सुत हुए इनमें वृषण वंशको चलाने वाला था ॥ ५४ ॥
 वृषणसे सब वृष्णि हुए हैं और मधुके वंशज माधव कहलाते हैं,
 यदुके कारण (उसके वंशज) यादव कहलाते हैं, हे निष्पाप!
 शूर शूरवीर और शूरसेन हैहय कहलाते हे उस महात्माका
 देश शूरसेन कहलाता है ॥ ५४ ॥ ५६ ॥ इस संसारमें जो
 मनुष्य कार्तवीर्यके चरित्रका नित्यपति कीर्तन करता है उसके
 पास कभी धनका अभाव नहीं होता है और उसको खोया

एते ययातिपुत्राणां पञ्चविंशा विशाम्पते । कीर्तिता लोक-
वीराणां ये लोकान् धारयन्ति च । भूतानीव महाराज पंचस्था-
वरजंगमान् ॥ ५८ ॥ श्रुत्वा पंचविसर्गन्तु राजा धर्मार्थकोविदः ।
वशी भवति पञ्चानामात्मजानां तथेश्वरः ॥ ५९ ॥ लभेत् पंच
वरांश्चैव दुर्लभानिह लौकिकान् । आयुः कीर्तिं तथा पुत्रानैश्वर्यं
भूमिमेव च । धारणाञ्छ्रवणाञ्चैव पंच वर्णस्य भारत ॥ ६० ॥
क्रोष्टोस्तु शृणु राजेन्द्र वंशमुत्तमपौरुषम् । यदोर्वंशधरस्याथ
यज्वनः पुण्यकर्मणः ॥ ६१ ॥ क्रोष्टहिं वंशं श्रुत्वेमं सर्वपापैः
ममुच्यते । यस्यान्ववायजो विष्णुर्हरिर्दृष्टिष्णुकुलोद्भवः ॥ ६२ ॥

इति श्रीमहभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

वैशम्पायन उवाच । गान्धारी चैव माद्री च क्रोष्टोर्भार्ये वभू-

हुआ धन भी मिल जाता है ॥५७॥ ये ययातिके पुत्रोंकी पच्चीस
पीढ़ियों कह दीं, हे महाराज ! लोकोंको धारण करने वाले पञ्च
महाभूतोंकी समान ये लोकवीर भी स्थावर जंगमात्मक लोकोंका
पालन करते रहने धे ५८ धर्म और अर्थमें चतुर राजा इन पाँचके
वंशको सुन कर पाँच विषयोंको वशमें करने वाला और अपने
पुत्रोंको वशमें रखने वाला ईश्वर होता है ५९ हे भारत ! इन
पाँच पुरुषोंको वंशके सुननेसे अथवा धारण करनेसे मनुष्य इस
लोकमें आयु कीर्ति पुत्र ऐश्वर्य और भूमिरूप पाँच दुर्लभ वरोंको
पाता है ॥६० ॥ हे राजेन्द्र ! अब तुम उत्तम पुरुषार्थ दिखानेचाले
क्रोष्टाके वंशको सुनो, वह पुण्य-कर्म करने वाला यज्ञ करने
वाला और यदुका वंशधर था ६१॥ दृष्टिष्णुकुलको उठाने वाले
विष्णु जिसके वंशमें उत्पन्न हुए हैं उस क्रोष्टाके वंशको सुन
कर मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है ६२ तैत्तिरीयों अध्याय समाप्त
वैशम्पायनजीने कहा, कि-क्रोष्टाकी गान्धारी और माद्री

वतुः । गान्धारी जनयामास अनमित्रं महाबलम् ॥ १ ॥ माद्री
युधाजितं पुत्रं व्रतोऽन्वं देवमीदुषमातेर्पा वंशस्त्रिधा भूतो वृष्णीनां
कुलवर्धनः ॥२॥ माद्रयाः पुत्रस्य जज्ञाते सुतो वृष्ण्यन्धकायुधौ ।
जज्ञाते तनयौ वृष्णोः श्वफल्करिचित्रकस्तथा ॥ ३ ॥ श्वफल्कस्तु
महाराजधर्मात्मा यत्र वर्तते । नास्ति व्याधिभयं तत्र नावर्ण-
भयमप्युत ॥ ४ ॥ कदाचित् काशिराजस्य विभोर्भरतसत्तम ।
त्रीणि वर्षाणि विषये नावर्षत् पाकशासनः॥५॥ स तत्र वासया-
यास श्वफल्कं परमार्चितम् । श्वफल्कपरिवर्ते च वर्षं हस्ति-
वाहनः ॥ ६ ॥ श्वफल्कः काशिराजस्य भुता भार्यामविन्दत ।
गांदिनीं नाम सा गान्तु ददौ विषेषु नित्यशः ॥ ७ ॥ सा मातु-
रुदरस्था तु बहून् वर्षगणान् क्लिप्त । निवसन्ती न वै जज्ञे गर्भ-

नाम वाली दो स्त्रियें थीं गांधारीने अनमित्र नाम वाले महाबली
पुत्रको उत्पन्न किया था ॥१॥ और माद्रीने एक युधाजित् और
दूसरे देवमीदुष नाम वाले पुत्रको उत्पन्न किया था, वृष्णियोंके
कुलको बढ़ाने वाला उनका वंश तीन शाखाओंमें बंट गया॥२॥
माद्रीके पुत्र (युधाजित) के वृष्णि और अंधक नाम वाले दो
पुत्र हुए और वृष्णिके श्वफल्क और चित्रक नामक दो पुत्र
हुए ॥ ३ ॥ महात्मा श्वफल्क जहाँ रहता था तहाँ व्याधिका
भय और अवर्षाका भय नहीं होता था ॥ ४ ॥ हे भरतसत्तम !
एक समय मधु काशिराजके देशमें इन्द्रने तीन वर्ष तक वर्षा नहीं
बरसाई थी ॥ ५ ॥ तब उसने परमपूज्य श्वफल्कको बुला कर
अपने यहाँ बसाया था, और श्वफल्कके आते क्षण ही वर्षा
होने लगी थी ॥ ६ ॥ श्वफल्कसे गांदिनी नाम वाली काशि-
राजकी पुत्री विवाही गई थी, वह ब्राह्मणोंको सदा गौओंका
दान देती रहती थी ॥ ७ ॥ वह अपनी माताके उदरमें बहुत
वर्षों तक रही थी और उत्पन्न नहीं होती थी उस गर्भमें स्थित

स्यान्तां पिताऽब्रवीत् ॥ ८ ॥ जायस्व शीघ्रं भद्रन्ते किमर्थमिह
 तिष्ठसि ॥ ९ ॥ प्रोवाच चैनं गर्भस्था कन्या गां च दिने दिने ।
 यदि दद्यां ततोऽद्याहं जाययिष्यामि तां पिता । तथेत्युवाच तं
 चास्याः पिता काममपूरयत् ॥ १० ॥ दाता यज्वा च धीरश्च श्रुत-
 वानतिथिप्रियः । अक्रूरः सुपुत्रे तस्माच्छ्लफल्काद्भूरिदक्षिणः ११
 उपासंगस्तथा मद्गुप्तुर्दुरश्चारिमेजयः । अविन्निपस्तथोपेक्षः
 शत्रुघ्नोऽथारिमर्दनः ॥ १२ ॥ धर्मधृग्यतिधर्मा च गृध्रमोजान्त-
 कस्तथा । आवाहप्रतिवाहौ च सुन्दरी च वरांगना ॥ १३ ॥
 अकुरेणोग्रसेनायां सुगात्रां कुरुनन्दन । प्रसेनश्चोपदेवश्च जज्ञाते
 देववर्चसा ॥ १४ ॥ चित्रकस्याभवन्पुत्राः पृथुर्विपृथुरेव च ।
 अश्वग्रीवोऽश्ववाहुश्च सुपार्श्वकगवेषणौ ॥ १५ ॥ अरिष्टनेमि-

कन्यासे उसके पिताने कहा, कि-॥ ८ ॥ हे भद्रे ! तू शीघ्र ही
 उत्पन्न हो तू किस लिये ठहर रही है ॥ ९ ॥ तब उस गर्भमें
 स्थित कन्याने कहा, कि-यदि मैं प्रतिदिन गोदान करती रहूँ
 अर्थात् आप मुझसे प्रतिदिन गोदान करानेका संकल्प करें तो
 मैं उत्पन्न होऊँ तब पिताने उससे तथास्तु कहकर उसकी कामना
 को पूर्ण किया था ॥ १० ॥ श्वफलकके दान देने वाला यजन
 करने वाला धीर शास्त्रज्ञ अतिथियोंको प्रिय समझने वाला और
 बड़ी २ दक्षिणायें देने वाला अक्रूर उत्पन्न हुआ था ॥ ११ ॥
 तथा उपासंग मद्गुप्तुर्दुरश्चारिमेजय अविन्निप उपेक्ष शत्रुघ्न अरि-
 मर्दन धर्मधृक् यतिधर्मा गृध्रम अजान्तक आवाह प्रतिवाह (नामक
 पुत्र और) वराङ्गना नाम वाली सुन्दरी (कन्या उत्पन्न हुई
 थी) ॥ १२ ॥ १३ ॥ हे कुरुनन्दन ! अक्रूरके उग्रसेना नाम
 वाली सुन्दर शरीर वाली स्त्रीसे देवताकी समान कान्ति वाले
 प्रसेन और उपदेव उत्पन्न हुए थे ॥ १४ ॥ (अक्रूरके भाई) चित्रकके
 पृथु विपृथु अश्वग्रीव अश्ववाहु सुपार्श्वक गवेषण अरिष्टनेमि

रश्मिश्च सुभर्मा धर्मभृत्तथा । सुवाहुर्वहुवाहुश्च श्रविष्ठाश्रवणे
स्त्रियौ ॥१६॥ अश्मक्यां जनयामास शूरं नै देवमीदुपः महिष्यां
जज्ञिरे शूराद्भोज्यायां पुरुषा दश ॥ १७ ॥ वसुदेवो महाबाहुः
पूर्वमानकदुन्दुभिः । जज्ञे यस्य प्रमूनस्य दुन्दुभ्यः प्राणदन्दिचि१८
आनकानां च संहारः सुमहानभवद्विचि । पपात पुंष्ववर्षं च
शूरस्य भवने महत् ॥१९॥ मनुष्यलोकं कृत्स्नेऽपि रूपे नास्ति
समो भुवि । यस्यासीत् पुरुषाऽभ्यस्य कान्तिरचद्रमसो यथा २०
देवभावस्ततो जज्ञे तथा देवश्रवाः पुनः । अनाष्टृष्टिः कनक्को
वत्सवानथ गृज्जिमः ॥२१॥ श्यामः शमीको गण्डूपः पञ्च चास्य
वरांगनाः । पृथुकीर्तिः पृथा चैव श्रुतदेवा श्रुतश्रवाः ॥ २२ ॥
राजाधिदेवी च तथा पंचैता वीरमातरः । पृथा दुहितरं वत्रे

अश्व सुभर्मा धर्मभृत् सुवाहु और बहुवाहु नामक पुत्र हुए थे
और उनकी श्रविष्ठा और श्रवणा नामकी दो स्त्रियें थीं ॥१५॥१६॥
(क्रोष्टाके तृतीय पुत्र) देवमीदुपने अश्मकीमें शूर नामक पुत्र
को उत्पन्न किया था, शूरने भोजकुलकी महिषीमें दश पुत्रोंको
उत्पन्न किया था १७ पहिले महाभुज आनकदुन्दुभि वसुदेवउत्पन्न
हुए थे उनके उत्पन्न होने पर स्वर्गमें दुन्दुभियें बर्जो थीं ॥१८॥
और स्वर्गमें नगाड़ोंका बड़ा भारी शब्द हुआ था (इसीसे
वसुदेवका उपनाम आनकदुन्दुभि पड़ गया था) और शूर
के घरमें पुष्योंकी बड़ी भारी वर्षा हुई थी ॥ १९ ॥
इन पुरुषोंमें अग्रणीय वसुदेवकी कान्ति चन्द्रमाकी समान थी,
उनकी समान रूपवान् सारे मनुष्यलोकमें और कोई भी नहीं
था ॥ २० ॥ फिर (शूरके) देवभाग देवश्रवाः अनाष्टृष्टि कनक्क
वत्सवान् गृजिम श्याम शमीक और गण्डूप (नामक पुत्र) तथा
पाँच स्त्रियोंमें श्रेष्ठ पुत्रियें हुई थीं (उनके नाम इस प्रकार हैं)
पृथुकीर्ति पृथा श्रुतदेवा श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी ये पाँचों

स्यान्तां पिताऽब्रवीत् ॥ ८ ॥ जायस्व शीघ्रं भद्रन्ते किमर्थमिह
 तिष्ठसि ॥ ९ ॥ प्रोवाच चैनं गर्भस्था कन्या गां च दिने दिने ।
 यदि दद्यां ततोऽद्याहं जाययिष्यामि तां पिता । तथेत्युवाच तं
 चास्याः पिता काममपूरयत् ॥ १० ॥ दाता यज्वा ऋधीरश्च श्रुत-
 वानतिथिमियः । अक्रूरः सुपुत्रे तस्पाच्छफल्काद् भूरिदक्षिणः ११
 उपासंगस्तथा मद्गुग्मृदुरश्चारिमेजयः । अविक्षिपस्तथोपेक्षः
 शत्रुघ्नोऽथारिमर्दनः ॥ १२ ॥ धर्मधृग्यतिधर्मा च गृध्रमोजान्त-
 कस्तथा । आवाहप्रतिवाहौ च सुन्दरी च वरांगना ॥ १३ ॥
 अकुरेणोग्रसेनायां सुगात्र्यां कुरुनन्दन । प्रसेनथोपदेवश्च जज्ञाते
 देववर्चसौ ॥ १४ ॥ चित्रकस्याभवन्पुत्राः पृथुर्विपृथुरेव च ।
 अश्वग्रीवोऽश्ववाहुश्च सुपार्श्वकगवेषणौ ॥ १५ ॥ अरिष्टनेमि-

कन्यासे उसके पिताने कहा, कि-॥ ८ ॥ हे भद्रे ! तू शीघ्र ही
 उत्पन्न हो तू किस लिये ठहर रही है ॥ ९ ॥ तब उस गर्भमें
 स्थित कन्याने कहा, कि-यदि मैं प्रतिदिन गोदान करती रहूँ
 अर्थात् आप मुझसे प्रतिदिन गोदान करानेका संकल्प करें तो
 मैं उत्पन्न होऊँ तब पिताने उससे तथास्तु कहकर उसकी कामना
 को पूर्ण किया था ॥ १० ॥ श्वफलकके दान देने वाला यजन
 करने वाला धीर शास्त्रज्ञ अतिथियोंको प्रिय समझने वाला और
 बड़ी २ दक्षिणायें देने वाला अक्रूर उत्पन्न हुआ था ॥ ११ ॥
 तथा उपासंग मद्गुग्मृदुर अरिमेजय अविक्षिप उपेक्ष शत्रुघ्न अरि-
 मर्दन धर्मधृक् यतिधर्मा गृध्रम अजान्तक आवाह प्रतिवाह (नामक
 पुत्र और) वराङ्गना नाम वाली सुन्दरी (कन्या उत्पन्न हुई
 थी) ॥ १२ ॥ १३ ॥ हे कुरुनन्दन ! अक्रूरके उग्रसेना नाम
 वाली सुन्दर शरीर वाली स्त्रीसे देवताकी समान कान्ति वाले
 प्रसेन और उपदेव उत्पन्न हुए थे ॥ १४ ॥ (अक्रूरके भाई) चित्रकके
 पृथु विपृथु अश्वग्रीव अश्ववाहु सुपार्श्वक गवेषण अरिष्टनेमि

रश्मिश्च सुधर्मा धर्मभृत्तथा । सुवाहुर्वहुवाहुश्च श्रविष्ठाश्रवणे
स्त्रियो ॥१६॥ अश्मक्यां जनयामास शूरं नै देवमीहुषः महिष्यां
जज्ञिरे शूराद्भोज्यायां पुरुषा दश ॥ १७ ॥ वसुदेवो महाबाहुः
पूर्वमानकदुन्दुभिः । जज्ञे यस्य प्रमृतस्य दुन्दुभ्यः प्राणदन्दिनि १८
आनकानां च संहारः सुमहानभवद्विचि । पयात् पुण्यवर्षं च
शूरस्य भवने महत् ॥१६॥ मनुष्यलोके कृत्स्नेऽपि रूपे नास्ति
समो भुवि । यस्यासीत् पुरुषाऽयस्य कान्तिश्चन्द्रमसो यथा २०
देवभावस्ततो जज्ञे तथा देवश्रवाः पुनः । अनाष्टृष्टिः कनवको
वत्सवानथ गृज्जिमः ॥२१॥ श्यामः शमीको गण्डूषः पञ्च चास्य
वरांगनाः । पृथुकीर्तिः पृथा चैव श्रुतदेवा श्रुतश्रवाः ॥ २२ ॥
राजाधिदेवी च तथा पंचैता वीरमातरः । पृथा दुहितरं वप्रे

अश्व सुधर्मा धर्मभृत् सुवाहु और बहुवाहु नामक पुत्र हुए थे
और उनकी श्रविष्ठा और श्रवणा नामकी दो स्त्रियें थीं ॥१५॥१६॥
(क्रोष्टाके तृतीय पुत्र) देवमीहुषने अश्मकीमें शूर नामक पुत्र
को उत्पन्न किया था, शूरने भोजकुञ्जकी महिषीमें दश पुत्रोंको
उत्पन्न किया था १७ पहिले महाभुज आनकदुन्दुभि वसुदेवउत्पन्न
हुए थे उनके उत्पन्न होने पर स्वर्गमें दुन्दुभियें वर्जि थीं ॥१८॥
और स्वर्गमें नगाड़ोंका बड़ा भारी शब्द हुआ था (इसीसे
वसुदेवका उपनाम आनकदुन्दुभि पड़ गया था) और शूर
के घरमें पुष्पोकी बड़ी भारी वर्षा हुई थी ॥ १९ ॥
इन पुरुषोंमें अग्रणीय वसुदेवकी कान्ति चन्द्रमाकी समान थी,
उनकी समान रूपवान् सारे मनुष्यलोकमें और कोई भी नहीं
था ॥ २० ॥ फिर (शूरके) देवभाग देवश्रवाः अनाष्टृष्टि कनवक
वत्सवान् गृज्जिम श्याम शमीक और गण्डूष (नामक पुत्र) तथा
पाँच स्त्रियोंमें श्रेष्ठ पुत्रियें हुई थीं (उनके नाम इस प्रकार हैं)
पृथुकीर्ति पृथा श्रुतदेवा श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी ये पाँचों

कुन्तिस्तां कुरुनन्दन ॥२३॥ शूरः पूज्याय वृद्धाय कुन्तिभोजाय
 तां ददौ । तस्मात् कुन्तीति विख्याता कुन्तिभोजात्मजा पृथा २४
 अन्त्यस्य श्रुतदेवायां जगृहः सुपत्ने सुतः । श्रुतश्रवायां चैद्यस्य
 शिशुपालो महाबलः ॥२५॥ हिरण्यकशिपुर्योसौ दैत्यराजोऽभवत्
 पुरा । पृथुकीर्त्या तु तनयः संजज्ञे वृद्धशर्मणः ॥२६॥ करुषाधि-
 पतिर्वीरो दन्तवक्रो महाबलः । पृथां दुहितरं चक्रे कुन्तिस्तां पांडु-
 रावहत् ॥ २७ ॥ यस्यां स धर्मविद्राजा धर्माञ्जने युधिष्ठिरः ।
 भीमसेनस्तथा वातादिन्द्राच्चैव धनञ्जयः ॥ २८ ॥ लोकेऽपति-
 रथो वीरः शक्रतुल्यपराक्रमः । अनमित्राच्छिनिर्जज्ञे कनिष्ठात्
 वृष्णिणन्दनात् ॥ २९ ॥ जैनेयः सत्यकस्तस्माद्युयुधानश्च सात्यकिः ।
 असंगो युयुधानस्य भूमिस्तस्याभवत् सुतः ॥ ३० ॥ भूमैर्ग-

वीर पुरुषों की माताएँ हैं, कुरुनन्दन ! कुन्ति राजाने पृथाको
 अपनी पुत्री बनानेके लिये माँगा था २१-२३ तब शूरने उसको
 पूज्य और वृद्ध राजा कुन्तिभोजको देदिया था इस कारण पृथा
 कुन्तिभोजकी पुत्री और कुन्ती कहलाती थी ॥ २४ ॥ अन्त्य
 का श्रुतदेवासे जगृह नामक पुत्र हुआ चैद्यवंशी (दमघोष)के
 श्रुतश्रवामें महाबली शिशुपाल उत्पन्न हुआ था ॥२५॥ वह पहिले
 जन्ममें दैत्यराज हिरण्यकशिपु था वृद्धशर्मासे पृथुकीर्तिमें करुष
 देशका स्वामी महाबली वीर दन्तवक्र उत्पन्न हुआ था, कुन्तिने
 जिस पृथाको पुत्री बना लिया था उसका पाण्डुके साथ विवाह
 हुआ था ॥ २७ ॥ उसमें धर्मको जानने वाले युधिष्ठिर धर्मसे
 उत्पन्न हुए थे और वायुसे भीमसेन तथा इन्द्रसे धनञ्जय उत्पन्न
 हुए थे, वह लोकमें इक्कड़ वीर थे और इन्द्रकी समान पराक्रमी
 थे, कनिष्ठवृष्णिणन्दन अनमित्रसे शिनि उत्पन्न हुए थे २८-२९
 उनसे शिनिपुत्र सत्यक हुए उनसे युयुधान उपनाम वाले
 सात्यकि उत्पन्न हुए युयुधानके असंग हुए उनके भूमि नामक पुत्र

नरः पुत्र इति वंशः समाप्यते । उद्धवो देवभागस्य महाभागः
सुतोऽभवत् । पण्डितानां परं माहुर्देवश्रवसमुद्धवम् ॥ ३१ ॥
अश्मत्यां मासवान् पुत्रमनाधृष्टिर्यशस्विनम् । निटत्तशत्रुं शत्रुन्नं
देवश्रवा व्यजायत ॥ ३२ ॥ देवश्रवाःभजातस्तु नैषादिर्यः प्रति
श्रुतः । एकलव्यो महाराज निपादैः परिवर्धितः ॥ ३३ ॥ वत्सा
वते त्वपुत्राय वसुदेवः प्रतापमान् । अद्भिर्ददौ सुतं वीरं शौरिः
कौशिकमौरसम् ॥ ३४ ॥ गण्डूपाय त्वपुत्राय विष्वक्सेनो ददौ
सुतान् । चारुदेष्णं सुचारुं च पञ्चालं कृतलक्षणम् ॥ ३५ ॥
असंग्रामेण यो वीरो नावर्तत कदाचन । रौक्मिण्येवो महाबाहुः
कनीयान् पुरुपर्षभ ॥ ३६ ॥ वागसानां सहस्राणि यं यान्तं

हुआ ॥ ३० ॥ भूमिके युगंधर नामक पुत्र हुआ यहाँ पर वंश
समाप्त होता है, देवभागके उद्धव नामक महाभाग्यवान् पुत्र हुआ
उस देवताकी समान कीर्तिवाले (पुत्र) को उद्धव कहते हैं ३१
(वसुदेवके तीसरे भाई) किंसीसे न दवने वाले देवश्रवाने अश्मकी
में शत्रुओंको हटाने वाले शत्रुघ्न नामक पुत्रको उत्पन्न किया
था ॥ ३२ ॥ किसी कारणसे त्यागनेके कारण (वह देवश्रवाका
पुत्र) निपादजातिका कहलाता था हे महाराज ! वह एकलव्य
नामसे प्रसिद्ध था और उसको निपादोंने बड़ा किया था ३३
प्रतापी वसुदेवने (अपने छोटे भाई) अपुत्र वत्सावान्को अपना
औरस पुत्र जलसे संरुज करके दे दिया ॥ ३४ ॥ श्रीकृष्णने
(वसुदेवके दूसरे छोटे भाई) अपुत्र गण्डूपको चारुदेष्ण सुचारु
पञ्चाल और कृतलक्षण नाम वाले अपने चार पुत्र देदिये
थे ॥ ३५ ॥ (अब चारुदेष्ण नामकी दो श्लोकार्थमें व्याख्या
करते हे) हे पुरुपर्षभ ! वह रुक्मिणीका छोटा पुत्र महाशुनथा
और वह वीर संग्रामके किये बिना नहीं लौटना था ॥ ३६ ॥
उसके पीछे सैकड़ों कोए इस इच्छासे जाते थे, कि-मार २ कर

पृष्ठतोऽन्वयुः । चारुमांसानि भोक्ष्यामश्चारुदेष्णहतानि तु ३७
तन्द्रिजस्तन्द्रिपालश्च सुतौ कनकस्य तु । वीरश्चाश्वहनश्चैव
वीरौ तावाजगृजिमौ ॥ ३८ ॥ श्यामपुत्रः शमीकस्तु शमीको
राज्यमावहत् । जुगुप्समानो भोजत्वाद्राजसूयमवाप सः ॥३९॥
अजातशत्रुः शत्रूणां जज्ञे तस्य विनाशनः । वसुदेवसुतान् वीरान्
कीर्तयिष्यामि तान् शृणु ॥ ४० ॥ वृष्णेस्त्रिविधमेतत्तु बहुशाखं
महौजसम् । धारयन् विपुलं वंशं नानर्थैरिह युज्यते ॥ ४१ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो हरिवंशपर्वणि वृष्णिवंश-
कीर्तनं नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

वैशम्पायन उवाच । याः पत्न्यो वसुदेवस्य चतुर्दश वरां-
गनाः । पौरवी रोहिणी नाम इन्दिरा च तथाऽवरा ॥१॥ नैशाखी

इमें चारु (मिष्ट) मांस देगा (चारु-मिष्ट पदार्थ-देगा इससे
वह चारुदेष्ण कहलाता था) ॥ ३७ ॥ (वसुदेवके भ्राता) कन-
कके तन्द्रिज और तन्द्रिपाल नामक पुत्र थे और (वसुदेवके
भाई) अजगृजिमके वीर और अश्वहन नामके पुत्र थे ॥३८॥
श्यामका पुत्र (छोटा भाई होनेसे पुत्रकी समान) शमीक हुआ
उस शमीकने राज्य किया था उसने भोज होनेके कारण अर्थात्
भोजवंशी एकवंशके ही राजे हैं इस प्रकार अपनी निन्दा कर
उसने राजसूय (साम्राज्य) पाया था ॥ ३९ ॥ (राजसूय
करनेका वृत्तान्त बताते हैं, कि-) वह शत्रुनाशक अजातशत्रु हो
गया था अर्थात् युधिष्ठिरकी सहायता करने वाला मित्र होगया
था अब मैं वसुदेवके वीर पुत्रोंका वर्णन करता हूँ, उनको तुम
सुनो ॥४०॥ मनुष्य वृष्णके इस तीन प्रकारके बहुतसी शाखा
वाले महापराक्रमी पुरुषों वाले बड़े भारी वंशको सुन कर अतर्प्य
में नहीं फँसता है ॥ ४१ ॥ चौतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३४॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-वसुदेवकी जो चौदह श्रेष्ठ पत्नियों

च तथा भद्रा सुनाम्नी चैव पंचमी । सहदेवा शान्तिदेवा श्रीदेवा
 देवरक्षिता ॥ २ ॥ वृकदेव्युपदेवी च देवकी चैव सप्तमी । सुननु-
 र्वडवा चैव द्वे एते परिचारिके ॥ ३ ॥ पौरवी रोहिणी नाम
 वाल्मिकस्पात्मजाऽभवत् । ज्येष्ठा पत्नी महाराज दयिताऽऽनक-
 दुन्दुभेः ॥ ४ ॥ लेभे ज्येष्ठं सुतं रामं सारणं शठमेव च । दुर्द-
 मन्दमनं श्वभ्रं पिण्डारकमुशीनरम् ॥ ५ ॥ चित्रां नाम कुमारीं
 च रोहिणीतनया दशचित्रा सुभद्रेति पुनर्विख्याता कुहनन्दन द-
 वसुदेवाच्च देवक्यां जज्ञे शौरिर्महायशाः । रामाच्च निशठो जज्ञे

थीं उनमें रोहिणी छोटी अथवा वैशाखी सुभद्रा और पाँचवीं
 सुनाम्नी थे पाँच पौरववंशकी थी तथा सहदेवा शांतिदेव श्री-
 देवा देवरक्षिता वृकदेवी उपदेवी और सातवीं देवकी ये सात
 देवकनी पुत्रियें थी और सुननु और बडवा नाम वाली ये दोनों
 उनकी परिचर्या करने वाली स्त्रियें थीं ॥१॥४॥ उसके ज्येष्ठ
 पुत्र बलराम सारथ शठ दुर्दम दमन श्वभ्र पिण्डारक उशीनर
 [ये पुत्र] और चित्रा नाम वाली कुमारी रोहिणीके ये दश
 सन्तानें उत्पन्न हुई थीं हे कुहनन्दन ! वह चित्रा [दूसरे
 जन्ममें] सुभद्रा नामसे प्रसिद्ध हुई थी [तात्पर्य—चित्रा तक
 गिनने पर रोहिणीकी नौ ही सन्ताने होती हैं, फिर यहाँ दश
 सन्तानें कैसे होसकती हैं अतः एव कहा है, कि—चित्रा दूसरे
 जन्ममें सुभद्रा नामसे प्रसिद्ध हुई थी इस प्रकार दश सन्तानें
 उत्पन्न हुई थीं, पुराणोंमें प्रसिद्ध है, कि—चित्रा नामकी एक
 अप्सरा मुनिके शापसे रोहिणीके गर्भमें आई थी और उत्पन्न
 होते ही मर गई थी, परन्तु उसने विचारा, कि—मुझे बिकार
 है, कि—मैंने यादवोंमें उत्पन्न होकर भी भगवान्की लीला नहीं
 देखी, इस प्रकार अनुत्पाप करके वह दूसरी बार सुभद्रा नाम
 धारण कर उत्पन्न हुई थी, इस प्रकार दश सन्तानें उत्पन्न

रेवत्यां दधितः सुतः ॥ ७ ॥ सुभद्रायां रथी पार्थादभिमन्युरजा-
यत । अक्रूरात् काशिकन्यायां सत्यकेतुरजायत ॥ ८ ॥ वसु-
देवस्य भार्यासु महाभागासु सप्तसु । ये पुत्रा जज्ञिरे शूरा नाम-
तस्तान्नबोधमे ॥ ९ ॥ भोजश्च विजयश्चैव शान्तिदेवासुता-
बुधौ । वृकदेवः सुदेवायां गदश्चास्तां सुताबुधौ ॥ १० ॥ उपा-
संगवरं लेभे तनयं देवरक्षिता । अगावहं महात्मानं वृकदेवी
व्यजायत ॥ ११ ॥ कन्या त्रिगर्तराजस्य भर्ता नौ शैशिरायणः ।
जिज्ञासां पौरुषे चक्रे न चस्कन्देऽथ पौरुषम् ॥ १२ ॥ कृष्णाय-
ससमपह्यो वर्षे द्वादशमे तथा । मिथ्याभिंशप्तौ गार्ग्यस्तु गन्यु-
नाभिसमीरतः ॥ १३ ॥ गोपकन्यामुपादाय मैथुनायोपचक्रमे ।

हुई थीं) ॥६॥ वसुदेवसे देवकीमें महायशस्वी श्रीकृष्ण उत्पन्न
हुए थे और रामसे रेवतीमें निशठ नामक पिय पुत्र हुआ था,
अर्जुनसे सुभद्रामें रथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ था, अक्रूरसे
काशिकन्यामें सत्यकेतु उत्पन्न हुए थे ॥ ७-८ ॥ वसुदेवकी
सात महाभाग्यवती पत्नीयोंमें जो शूरीर पुत्र उत्पन्न हुए थे
उनके नामोंको तुम सुनों ॥ ९ ॥ भोज और विजय ये दो शान्ति-
देवाके पुत्र हुए सुदेवामें वृकदेव और गद उत्पन्न हुए थे ॥ १०
देवरक्षिताने उपासंगवर महात्मा अवगाह नाम वाले पुत्रको
उत्पन्न किया था त्रिगर्तराजके वृकदेवी नाम वाली कन्या उत्पन्न
हुई थी, त्रिगर्तराजका भर्ता [पुरोहित] शैशिरायण था [उसके
यादवपत्नी साले पुरोहितने] यह जानना चाहा था, कि-यह नपुंसक
तो नहीं है, परन्तु उसका वीर्य स्वलित नहीं हुआ [क्योंकि-
उसने व्रतको धारण कर रक्खा था अतः उसका वीर्य स्वलित
नहीं हुआ था इससे उसको सालेने मिथ्या ही नपुंसक वता दिया
था] वारहवर्ष वीतने पर मिथ्या दोष लगानेके कारण गार्ग्यगोत्री
शैशिरायण कोपमें भर कर लोहेकी समान कान्तिमान् दीखने

गोपाली त्वप्सरास्तस्य गोपस्त्री वेषधारिणी ॥ १४ ॥ धारया-
 मास मार्ग्यस्य गर्भं दुर्धरमच्युनम् । मानुष्या मार्ग्यभार्यायां नियो-
 गच्छूलः ॥ १५ ॥ स कालयवनो नाम जज्ञे राजा महा-
 बलः । वृषपूर्वार्धकायास्तगवहन् वाजिनो रणे ॥ १६ ॥ अपुनस्य
 स राजस्तु ववृधेन्तःपुरे शिशुः । यवनस्य महाराज स काल-
 यवनोऽभवत् ॥ १७ ॥ स युद्धकापी नृपतिः पर्यपृच्छद् द्विजोत्त-
 मान् । वृषण्यन्धककुलं तस्य नारदोऽकथयद्विशुः ॥ १८ ॥ अन्नौ-
 द्विष्या तु सैन्यस्य मथुरामभ्ययात्तदा । दूतं संप्रेषयामास
 वृषण्यन्धकनिवेशनम् ॥ १९ ॥ ततो वृषण्यन्धकाः कृष्णं पुर-
 स्कृत्य महामतिम् । संमते मन्त्रयामासुर्यवनस्य भयात्तदा ॥ २० ॥
 कृत्वा च निश्चयं सर्वे पलायनपरायणाः । विहाय मथुरां रम्यां

लगा) ॥ १३ ॥ और वह गोपकन्याको लेकर मैथुन करनेलगा
 था वह स्त्री गोपस्त्रीका वेश धारण करने वाली गोपाली नामकी
 अप्सरा थी ॥ १४ ॥ उसने मार्ग्यके अच्युन और दुर्धर गर्भको
 धारण कर लिया था, उस मनुष्यका वेष धारण करने वाली
 मार्ग्यकी भार्यायें शिवजीकी आज्ञासे कालयवन नाम वाला महा-
 बली राजा हुआ था उसको टपकी समान आधे शरीर वाले घोड़े
 सवारी देते थे ॥ १५-१६ ॥ राजा यवन अपुन था हे महाराज !
 उसके अन्तःपुरमें वह शिशु पलने लगा, वह कालयवन हुआ
 था ॥ १७ ॥ वह राजा युद्ध करनेकी इच्छासे ब्राह्मणों
 से [लड़ने योग्य पुरुषोंको] बृभने लगा, विशु नारदजीने उस
 को वृषिण और अन्धक कुलके वीर लड़नेयोग्य बताया ॥ १८ ॥
 तब वह एक अन्नौद्विणी सेना लेकर मथुरापुरी पर चढ़ गया था
 उसने वृषिण और अन्धकोंके भवनमें दूतका भेजा ॥ १९ ॥ तब
 कालयवनके डरसे वृषिण और अन्धकोंने महामति श्रीकृष्णके
 सभापतित्वमें इकट्ठे होकर सभा कर मन्त्रणाकी ॥ २० ॥

मानयन्तः पिनाकिनम् ॥ २१ ॥ कुशस्थलीं द्वारवतीं निवेशयित्-
पीप्सवः । इति कृष्णस्य जन्मेदं यः शुचिर्निपतेन्द्रियः । पर्वसु
श्रावयेद्विद्वानवृणः स सुखी भवेत् ॥ २२ ॥ :

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि श्रीकृष्ण-
जन्मानुकीर्तनं नाम पंचत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

वैशम्पायन उवाच । क्रोष्टोरेवाभवत् पुत्रो वृजिनीवान् महा-
यशाः । वृजिनीवत्सुतश्चापि स्वाहिः स्वाहाकृता वरः ॥ १ ॥
स्वाहेः पुत्रोऽभवद्राजा उपद्रुगुर्वदतां वरः । महाक्रतुभिरीजे वो
विविधैर्भूरिदक्षिणैः ॥ २ ॥ सुतप्रसूतिमन्विच्छन्नूपद्रुगुः सोऽय-
मात्मजम् । जज्ञे चित्ररथस्तस्य पुत्रः कर्मभिरन्वितः ॥ ३ ॥

तत्र वे सत्र निरचय करके शिवकी मानता मानते हुए कुशस्थली
द्वारिकाको वसानेकी इच्छासे मथुरा नगरीको त्यागकर भाग
खड़े हुए, जो विद्वान् पुरुष इन्द्रियोंको वशमें करके पवित्रतासे
श्रीकृष्णके इस जन्मको पर्वके समय सुनाता है उसके ऊपरका
श्रुणु निवट जाता है ॥ २१ ॥ २२ ॥ पैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ३५

वैशम्पायन मुनिने कहा, कि-क्रोष्टाके वृजिनीवान् नामक महा-
यशस्वी पुत्र हुआ, वृजिनीवान्का पुत्र स्वाहि हुआ वह स्वाहामें
अर्थात् होम करने वालोंमें श्रेष्ठ था [जिस प्रकार कृष्ण क्रोष्टाके
वंशमें उत्पन्न हुए थे उसीप्रकार क्रोष्टाके वंशमें सत्यभामा आदि
हुई थीं, क्षत्रियोंमें एक कुलके होने पर भी सापिण्डधनिवृत्तिके
बाद पुरोहितके गोत्रसे यज्ञमान क्षत्रियका भी गोत्र बदल जाता
है और इस प्रकार गोत्रभेदसे उनमें विवाह होजाते हैं] ॥ १ ॥

स्वाहाका पुत्र बोलने वालोंमें श्रेष्ठ उपद्रुगु हुआ उस राजाने
बहुतसी दक्षिणा बाले बड़े २ यज्ञोंसे यजन किया था । २। वह
यह चाहता था, कि-मेरे बड़े पुत्रके बहुतसी सन्तान हो, उसके
पुत्रेष्टि आदि कर्म करने वाला चित्ररथ नामक पुत्र हुआ ॥ ३ ॥

आसीत्त्रैत्रयिर्वीरो यज्वा विपुलदक्षिणः । शशविन्दुः परं
 वृत्तं राजर्षीणामनुष्ठितः ॥ ४ ॥ पृथुश्रवाः पृथुयशा राजाऽसी-
 च्छशविन्दुजः । शंसन्ति च पुराणज्ञाः पार्थश्रवसमुत्तरम् ॥ ५ ॥
 अनन्तरं सुयज्ञस्तु सुयज्ञतनयोऽभवत् । उशतो यज्ञमस्त्रिर्ण स्व-
 धर्ममुशतां वरः ॥ ६ ॥ शिनेयुरभवत् सूनुकशतः शत्रुतापनः ।
 मरुत्तस्तस्य तनयो राजर्षिरभवन्नृप ॥ ७ ॥ मरुत्तोऽलभत ज्येष्ठं
 सुतं कम्बलवर्हिपम् । चचार विपुलां धर्ममंपर्षात् प्रेत्यभागपि ८
 सुतप्रमृतिमिच्छन् नै सुतं कम्बलवर्हिपः । वभूवै रुक्मकवचः शत-
 मंसवतः सुतः ॥ ९ ॥ निहत्य रुक्मकवचः शतं कवचिनां रणे ।
 धन्विनां निशितैर्वाणैरशप श्रियमुत्तमाम् ॥ १० ॥ जज्ञेऽथ रुक्म-
 कवचात् पराजित् परवीरहा । जज्ञिरे पञ्च पुत्रास्तु महावीर्याः
 उसके बहुतसी दक्षिणा देने वाला यज्ञ करने वाला वीर शश-
 विन्दु पुत्र हुआ वह राजर्षियोंके आचारका पालन करता था
 शशविन्दुका पुत्र महायशस्वी पृथुश्रवा हुआ, पुराण जानने वाले
 पुरुष पृथुश्रवाके पुत्रको उत्तर कहते हैं ॥ ५ ॥ उसका पुत्र सुयज्ञ
 हुआ उसका पुत्र उशत हुआ वह अपने धर्म यज्ञको चाहने वालोंमें
 श्रेष्ठ था, उशतके शत्रुतापन शिनेयु नामक पुत्र हुआ हे नृप !
 राजर्षि मरुत्त हुआ ६-७ मरुत्तने कम्बलवर्हिप नाम वाले पुत्र
 को पाया था उसने मरणधर्मा होने पर भी परम धर्मका आचा-
 रण किया था ॥ ८ ॥ वह अपने पुत्र कम्बलवर्हिपके पुत्र होजाय
 यह चाहता था, उसका पुत्र रुक्मकवच हुआ वह सौ बालकोंमें
 एक बालक वचा था ॥ ९ ॥ रुक्मकवचने युद्धमें धनुष और
 कवचको धारण करने वाले सौ योधाओंको मार कर बड़ीभारी
 कीर्ति पाई थी ॥ १० ॥ रुक्मकवचके शत्रुओंके वीरोंका नाश करने
 वाला पराजित् नामक सुतहुआ, पराजित्के महावीर्यवान् पाँच
 पुत्र हुए थे [उनके नाम इस प्रकार हैं] रुक्मेपु पृथुरुक्म ज्यामय

पराजितः ॥ ११ ॥ रुक्मेषुः पृथुरुक्मश्च ज्यामघः पालितो हरिः ।
 पालितं च हरिं चैव विदेहेभ्यः पिता ददौ ॥ १२ ॥ रुक्मेषुर-
 भवद्राजा पृथुरुक्मस्य संश्रितः । ताभ्यां प्रव्राजितो राज्याज्ज्या-
 मघोज्जसदाश्रमे ॥ १३ ॥ प्रशान्तश्चाप्रशान्तः स ब्राह्मणैश्च-
 चरोधितः । जिगाय रथमास्थाय देशमन्यं ध्वजी रथी ॥ १४ ॥
 नर्मदाकूलमेकाकी नगरां मृत्तिकावतीम् । ऋत्नवन्तं गिरिं जित्वा
 शुक्तिमत्यामुवास सः ॥ १५ ॥ ज्यामघस्याभवद्भार्या शैव्या बल-
 वती सती । अपुत्रोऽपि च राजा स नान्या भार्यामविदत् १६
 तस्यासीद्विजयो युद्धे तत्र कन्यामवाप सः । भार्यामुवाच संव्रस्तः
 स्नुपेति स नरेश्वरः ॥ १७ ॥ एतच्छ्रुत्वाऽब्रवीद्देवी कस्य चेयं
 स्नुपेति वै । अब्रवीच्चतुपश्रुत्य ज्यामघो राजसत्तमः ॥ १८ ॥

पालित और हरि, पालित और हरिको पिताने विदेहदेशका
 पालन करनेके लिये तहाँके राजाको दे दिया था ॥ १२ ॥ रुक्मेषु
 पृथुरुक्मका आश्रय लेकर राजा बन गया था और उन दोनोंके
 निकाल देने पर ज्यामघ आश्रममें रहने लगा था ॥ १३ ॥ वह
 (वृद्ध होनेसे) प्रशान्त रहता था और राजा होनेके कारण
 राज्य छिन जानेसे) शान्त नहीं रहता था ब्राह्मणोंने उसको
 तप आदिसे बढा दिया था तब उसने रथमें बैठ ध्वजा लगाकर
 दूसरे देशको जीत लिया था ॥ १४ ॥ उसने इकेले ही नर्मदाके
 किनारेकी मृत्तिकावती और ऋत्नवान् पर्वतको जीतकर शुक्ति-
 मती पुरीमें अपना निवासस्थान बनाया था ॥ १५ ॥ ज्यामघ
 की बलवती सती शैव्या नामकी भार्या थी, उस राजाने अपुत्र
 होने पर भी दूसरी भार्यासे विवाह नहीं किया था ॥ १६ ॥
 उसने एक युद्धमें विजय होने पर एक कन्या पाई थी, उस नरे-
 श्वरने अपनी भार्यासे उस कन्याको स्नुपा-पुत्रवधू-बताया
 था ॥ १७ ॥ यह सुनकर उसकी स्त्रीने कहा, कि-ये किसकी

यस्ते जनिष्यते पुत्रस्तस्य भार्योपदानवी । उग्रेण तपसा तस्याः
 कन्यायाः स व्यजायत । पुत्रं विदर्भं सुभगा शैव्या परिणता
 सती ॥ १६ ॥ राजपुत्र्यान्तु विद्वांसौ स्नुषायां कथकौशिकौ ।
 पश्चाद्विदर्भोऽजनपच्छूरी रणविशारदौ ॥२०॥ लोमपादं तृतीयं
 तु । पुत्रं परमधार्मिकम् । लोमपादात्मजो बभ्रुराहवृतिस्तस्य
 चात्मजः ॥ २१ ॥ आहृतेः कौशिकश्चैव विद्वान् परमधार्मिकः ।
 चेदिः पुत्रः कौशिकस्य तस्माच्चैद्या नृपाः स्मृताः ॥२२॥ भीमो
 विदर्भस्य सुगः कुन्तिस्तस्यात्मजोऽभवत् ॥ कुन्तेष्टृष्टसुतो जज्ञे
 रणधृष्टः प्रतापवान् । धृष्टस्य जज्ञिरे शूरास्त्रयः परमधार्मिकाः २३
 आवन्तश्च दशार्हश्च बली विपहरश्च यः । दशार्हस्य सुतो व्योमा

पुत्रबधू है, तब राजश्रेष्ठ ज्यामघने प्रतिज्ञा करके कहा, कि-१८
 तेरे जा पुत्र होगा यह उपदानवी उसकी भार्या होगी, उस
 (उपदानवी) कन्याके उग्र तपके कारण वह (ज्यामघके पुत्र)
 उत्पन्न हुआ था, शैव्या वृद्ध होगई थी तब भी उस सुभगाने
 विदर्भ नामक पुत्रको उत्पन्न किया था ॥ १६ ॥ इसके उप-
 रान्त उस राजपुत्रीमें विदर्भने शूरवीर रणविशारद कथ और
 कौशिक नाम वाले विद्वान् पुत्रोंको उत्पन्न किया था ॥ २० ॥
 और लोमपाद नाम वाले तीसरे परम धार्मिक पुत्रको उत्पन्न
 किया था, लोमपादके बभ्रुनामक पुत्र हुआ उसका पुत्र आह-
 वृति हुआ आहवृतिके कौशिक हुआ, वह विद्वान् और परम
 धार्मिक था, कौशिकके चेदि नामक पुत्र हुआ इससे उसके वंश
 के राजे चैद्य कहलाते हैं ॥ २२ ॥ विदर्भके भीम नामक पुत्र
 हुआ उसका पुत्र कुन्ति हुआ, कुन्तिके रणढीठ प्रतापी धृष्ट
 नामक पुत्र हुआ था, धृष्टक शूरवीर परमधार्मिक तीन पुत्र
 उत्पन्न हुए थे ॥ २३ ॥ (उन तीनके नाम इसप्रकार हैं, आवन्त)
 दशार्ह बलवान् विपहर, दशार्हके व्योम नामक पुत्र हुआ

व्योम्नो जीमूत उच्यते ॥ २४ ॥ जीमूतपुत्रो वृकतिस्तस्य भीम-
 रथः सुतः । अथ भीमरथस्पासीत् पुत्रो नवरथस्तथा ॥ २५ ॥
 तस्य चासीदशरथः शकुनिस्तस्य चात्मजः । तस्मात् करम्भः
 कारंभिर्देवरातोऽभवन्नृप ॥ २६ ॥ देवत्तत्रोऽभवत्तस्य दैवत्तत्रि-
 र्महायशाः । देवगर्भसमो जज्ञे देवत्तत्रस्य नन्दनः ॥ २७ ॥ मधूनां
 वंशकृद्राजा मधुर्मधुरवागपि । मधुर्जज्ञेऽथ नैदर्भ्यां पुत्रो मरु-
 वसास्तथा ॥ २८ ॥ आसीन्मरुवसः पुत्रः पुरुद्वान् पुरुपोत्तमः ।
 मधुर्जज्ञेऽथ नैदर्भ्यां भद्रवत्यां कुरुद्वह ॥ २९ ॥ ऐच्वाकी चाभव-
 द्भार्या सत्त्वान्स्तस्यामजायत । सत्त्वान् सर्वगुणोपेतः सात्त्वतां
 कीर्त्तिवर्धनः ॥ ३० ॥ इमां विष्टृष्टिं विज्ञाय ज्यामघस्य महा-

व्योमके जीमूत नामक तनय हुआ ॥ २४ ॥ जीमूतके
 वृकति नामक पुत्र हुआ उसका सुत भीमरथ हुआ, इसके
 उपरान्त भीमरथके नवरथ नामक तनय हुआ था ॥ २५ ॥
 उसका तनय दशरथ हुआ, उसका पुत्र शकुनि हुआ उसके
 करम्भ नामक पुत्र हुआ करम्भका पुत्र राजा देवरात हुआ २६
 उसका पुत्र देवत्तत्र हुआ देवत्तत्रके आनन्द देनेवाला महा-
 यशस्वी दैवत्तत्रि हुआ वह देवताओंके गर्भ (बालक) की समान
 था उसका नाम मधु था उसकी वाणी भी मधुर थी वह मधुओं
 के वंशके चलाने वाला था, मधुके नैदर्भ्यासे मरुवसा नामक
 सुत हुआ ॥ २७ ॥ २८ ॥ मरुवसाके सुतोंमें उत्तम पुरुद्वान्
 नामक पुत्र हुआ (राजा मरुवसाके) भद्रवती नामवाली नैदर्भ्या
 में मधु नामक सुत हुआ था ॥ २९ ॥ (और उसकी जो)
 ऐच्वाक कुलकी स्त्री थी उसमें सत्त्वान् नामक तनय हुआ,
 सत्त्वान् सर्वगुणसंपन्न था और सात्त्वतवंशियोंकी कार्तिकी
 वदाने वाला था ॥ ३० ॥ मनुष्य महात्मा ज्यामघकी इस सृष्टिकी

त्मनः । युज्यते परंपरा कीर्त्या मजावांश्च भवेन्नरः ॥ ३१ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

वैशम्पायन उवाच । सत्त्वात् सत्त्वसम्पन्नान् कौशल्या सुपुत्रे
सुतान् । भजिनं भजमानं च दिव्यं देवावृथं नृपम् ॥१॥ अन्धकं
च महाबाहुं वृष्णि च यदुनन्दनम् । तेषां विसर्गश्चत्वारो विस्त-
रेणेह ताञ्छृणु ॥२॥ भजमानस्य संजय्यो बाह्यकाथापवाहका ।
आस्तां भार्ये तयोस्तस्माज्जज्ञिरे बहवः सुताः ॥ ३ ॥ कृमिश्च
क्रमणश्चैव धृष्टः शूरः पुरञ्जयः।पते बाह्यकसृञ्जय्या भजमाना-
द्विजज्ञिरे ॥ ४ ॥ अयुताजित् सहस्राजित् च्छात्राजित् चाथ दशकः ।
अपवाहकसृञ्जय्या भजमानाद्विजज्ञिरे ॥ ५ ॥ यज्वा देवानुधो
राजा चचार विपुर्न तपः । पुत्रः सर्वगुणोपेतो मम स्यादिति
निश्चितः ॥ ६ ॥ संपुञ्ज्यात्मानमेवन्तु पर्णाश्रियां जनां स्पृशन् ।

जान कर परम कीर्ति पाता है और सन्तानवान् होजाता है ३६
क्षतीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-सत्त्वतसे कौशल्याने सत्त्व वाले
भजिन भजमान दिव्य राजा देवावृथ महाबाहु अंधक और यदु-
नन्दन वृष्णि नामक सत्त्वसम्पन्न पुरुषोंको उत्पन्न किया था;
उनके चार बंश चले थे उनको तुम विस्तारपूर्वक सुनो ॥१॥२॥
भजमानके सृञ्जयकी पुत्री बाह्यका और अपवाहका नाम वाली
दो स्त्रियों थीं उनसे बहुतेसे पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥ ३ ॥ भज-
मानके सृञ्जयकी पुत्री बाह्यकामें कृमि क्रमण धृष्ट शूर और
पुरंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥४॥ और भजमानके सृञ्जय
की पुत्री अपवाहकामें अयुताजित् सहस्राजित् शताजित् और
दशक नामवाले पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥ ५ ॥ यजन करने वाले
राजा देवावृथने- मेरे सर्वगुणसम्पन्न पुत्र हो इस इच्छासे घोर

सदोपस्पृशनस्तस्य चकार प्रियमापगा ॥७॥ चिन्तयाऽभिपरीता
 सा जगामैकाऽभिनिश्चयम् । कल्याणत्वान्नरपतेस्तस्य सा निम्न-
 गोत्तमा ॥ ८ ॥ नाध्यगच्छत तां नारीं यस्यामेवं विधः सुतः ।
 जायेत्तस्पात्स्वयं हन्त भवाम्यस्य सद्व्रता ॥ ९ ॥ अथ भूत्वा
 कुमारी सा विभ्रती परमं वयुः । वरयामास नृपतिं तामियेष च
 स प्रभुः ॥ १० ॥ तस्यामावत्त गर्भं च तेजस्विनमुदारधीः । अथ
 सा दशमे मासि सुपुत्रे सरितां वरा ॥ ११ ॥ पुत्रं सर्वगुणोपेतं
 वभ्रुं देवावृधान्नुपात् । अत्र वंशे पुराणज्ञा गायन्तीति परि-
 श्रुतम् ॥ १२ ॥ गुणान् देवावृधस्याथ कीर्तयन्तो- महात्मनः ।
 यथैवाग्रे समं दूरात् परयाम च तथान्तिके ॥ १३ ॥ वभ्रुश्रेष्ठो
 तप क्रिया था ॥ ६ ॥ वह राजा ऐसा निश्चय करके पर्णाशा
 नदीके जलमें खड़ा होकर तप करता था, अपने जलमें सदा
 खड़े रहने वाले राजाका नदी प्रिय करना चाहने लगी ॥ ७ ॥
 उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं दीखी कि-जिसमें ऐसा पुत्र उत्पन्न
 होसके, तब उस नदियोंमें श्रेष्ठ स्त्रीने उस राजाका कल्याण
 करनेके लिये एकान्तमें यह विचार किया, कि-मैं ही उसकी
 सहचारिणी बन जाऊँ ॥ ८ ॥ ९ ॥ तदनन्तर उसने कुमारी बन
 श्रेष्ठ रूप धारण कर राजाको वरना चाहा और राजाने उसको
 स्वीकार कर लिया ॥ १० ॥ तदनन्तर उस महाबुद्धिने उसमें गर्भ
 स्थापन किया, तदनन्तर उस नदियोंमें श्रेष्ठ पर्णाशाने राजा देवा-
 वृधसे सर्वगुणसम्पन्न वभ्रु नामक सुतको उत्पन्न किया था, सुना
 है, कि-इस वंशकी प्राचीन बातोंको गाने वाले महात्मा देवा-
 वृध गुणोंका इस प्रकार कीर्तन करते थे, कि-महात्मा देवावृध
 को हम दूर देशमें देखते थे तैसे ही उसको समीपमें देखते थे अर्थात्
 उसको योगबलके कारण अनेक रूप धारण कर सर्वत्र एक रूप
 में विराजमान देखते थे ११-१३। वभ्रु मनुष्योंमें श्रेष्ठ है देवावृध

मनुष्याणां देवैर्देवावृधः समः ॥ पट्टिरच पट् च पुरुषाः सहस्राणि
 च सप्त च ॥ १४ ॥ एतस्मृतत्वं संप्राप्ता वभ्रुर्देवावृधानपि । यज्वा
 दानपतिर्विद्वान् ब्रह्मण्यः सुदृढायुधः ॥ १५ ॥ कीर्तिमाश्च महा-
 तेजाः सात्वतानां महावरः । तस्यान्वनायः सुमहान् भोजा ये
 मार्तिकावताः ॥ १६ ॥ अन्धकात् काश्यदुहिता चतुरो लभतात्म-
 जान् । कुकुरं भजमानं च शमि कम्बलवर्हिपम् १७ ॥ कुकुरस्य
 सुतो धृष्णुर्धृष्णोस्तु तनयस्तथा । कपोतरोमातस्याश्च तैत्तिरि-
 स्तनयोऽभवत् ॥ १८ ॥ जज्ञे पुनर्वसुस्तस्मादभिजित्तु पुनर्वसोः ।
 तस्य वै पुत्रमिथुनं वभूवाभिजितः किल ॥ १९ ॥ आहुकरचाहुकी
 चैव ख्यातौ रूपातिमताम्बरौ । इमां चोदाहंरंत्यत्र गाथां प्रति
 तमाहुकम् ॥ २० ॥ श्वेतेन परिवारेण किशोरप्रतिमो महान् ।

देवताकी समान हैं वभ्रु और देवावृध तथा सात सहस्र द्विधासंठ
 मनुष्य अमृतत्वको प्राप्त होगए थे अर्थात् युद्धमें मर कर ब्रह्मलोक
 को चले गए थे राजा वभ्रु दानियोंका स्वामी था यजन करने
 वाला था विद्वान् था ब्राह्मणभक्त था और उसके आयुष दृढ थे, वह
 कीर्तिमान् और महातेजस्वी था और सात्वतवंशियोंमें परम श्रेष्ठ
 था, उस वभ्रुका वंश बहुत बड़ा है, मार्तिकावत भोज उसकी ही
 सन्तानोंमें हैं, अन्धकवंशी (वभ्रु) से काश्य-दृढारव-की पुत्री
 में कुकुर भजमान शमिक और वलवर्हिप नामक चार पुत्र उत्पन्न
 हुए थे ॥ १४-१७ ॥ कुकुरके धृष्णु नामक पुत्र हुआ, धृष्णुके
 कपोतरोमा नामक पुत्र हुआ कपोतरोमाके तैत्तिरि नामक पुत्र
 हुआ ॥ १८ ॥ तैत्तिरिके पुनर्वसु नामक पुत्र हुआ, पुनर्वसुके
 अभिजित् नामक पुत्र हुआ, उस अभिजित्के पुत्र और पुत्री ये
 दो मिथुन सन्तान उत्पन्न हुई थी ॥ १९ ॥ वे दोनों युद्धिमान्
 आहुक आहुकीके नामसे प्रसिद्ध हैं, राजा आहुकके सम्वन्धमें
 इस गाथाको (मनुष्य) गाया करते हैं, कि- ॥ २० ॥ वह राजा

अशीतिनर्मणा युक्तः स नृपः प्रथमं व्रजेत् ॥ २१ ॥ नापुनवान्नाशदतो नासहस्रशतायुषः । नायुद्धकर्मा नायज्वा यो भोजमभितो व्रजेत् ॥ २२ ॥ पूर्वस्यां दिशि नागानां भोजस्येत्यनुमोदनम् । सोपासंगानुकर्षाणां ध्वजिनां सवरुधिनाम् ॥ २३ ॥ रथानां मेघघोषाणां सहस्राणि दशैव तु । रूप्यकांचनरुत्ताणां सहस्राणि दशापि च ॥ २४ ॥ तावन्त्येष सहस्राणि उत्तरस्यां तथा दिशि । आभूमिपालान् भोजान् स्वानुत्तिष्ठन् किंकिणीकिणः ॥ २५ ॥ आहुकी चाप्यवन्निभ्यः स्वसारं ददुरन्धकाः । आहुकस्य तु काश्यायां द्वौ पुत्रौ संवभूवतुः ॥ २६ ॥

अपने श्वेत (शुद्ध) परिवारके साथ चलता था, उसके चर्म (दारुमय आसन) को अस्सी आदमी उठाते थे अथवा जिनको शीति (स्वप्न) नहीं होता है वे अशीति (देवता) उसकी ढाल थे अर्थात् वह देवरक्षित था ॥ २१ ॥ उस भोजके आगे चलने वाले (परिवारमें) ऐसा कोई नहीं था जो अपुत्र हो अथवा सैकड़ोंकी दक्षिणा देने वाला न हो अथवा सैकड़ों सहस्रों वर्षकी आयु वाला न हो अथवा अशुद्ध कर्म करने वाला हो और यजन करने वाला न हो ॥ २२ ॥ उत्तर दिशामें राजा भोज (आहुक) का अभिवादन करनेके लिये चाँदी और सोनेके ओहदे वाले दश सहस्र हाथी आते थे और जुआ अनुरूप (रथके नाँचेका काष्ठ) और बरुथ (रथकी गुप्ति परदा) वाले और मेघोंकी समान घोष करने वाले दश सहस्र रथ उसको अभिवादन करने को आते थे ॥ २३ ॥ २४ ॥ इतने ही रथ और हाथी उत्तर तथा और दिशामोंमें भी अभिवादन करनेके लिये आते थे, भोजवंशी सब सामन्तोंको वंशमें करके आहुककी उपासना करते थे, राजा आहुकने उन सबके रथ तपे हुए सोनेकी घण्टियाँ वाले बनवा दिये थे ॥ २५ ॥ अन्यरुवंशियोंने अपनी वहिन आहुकी

सेनय देवपुत्रसमाचुर्षी । देवकस्याभवन् पुत्राश्चत्वारस्त्रिंशो-
पमाः ॥ २७ ॥ देववानुादेवश्च सुदेवो देवरत्नितः । कुमार्यः सप्त
चाप्यासन् वसुदेवाय ता ददौ ॥ २८ ॥ देवकी शान्तिदेवा च
सुदेवा देवरत्निता । वृकदेव्युपदेवी च सुनाम्नी चैव सप्तमी २९
नवोग्रसेनस्य सुतातेषां कंसस्तु पूर्वजः । न्यग्रोधश्च सुनामा च
कंकः शंकुः सुभूमिपः ॥ ३० ॥ राष्ट्रपालोऽथ सुतनुरनाष्टृष्टिश्च
पुष्टिमान् । तेषां स्वसारः पञ्चासन् कंसा कंसवती तथा । ३१।
सुतन् राष्ट्रपाली च कंका चैव वरांगना । उग्रसेनः सहापत्यो
व्याख्यातः कुकुरोद्भनः ॥ ३२ ॥ कुकुराणामिमं वंशं धारयन्-
मितौजसाम् । आत्मनो विपुलं वंशं मन्नावान्ताप्नुयाभ्नरः ॥ ३३ ॥
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि सप्तत्रिंशोऽध्यायः

अवन्तिवंशीको विवाह दी थी, आहुकके काशिराजकी पुत्रीमें
देवक और उग्रसेन नामवाले दो पुत्र हुए थे, वे दोनों देवपुत्रोंकी
समाच थे, देवकके देवान् उपदेव सुदेव और देवरत्नित नाम वाले
देवताकी समान चार पुत्र थे और सात कुमारियें थी उनका
उसने वसुदेवके साथ विवाह कर दिया था ॥ २६ ॥ २८ ॥
(उनके नाम इस प्रकार है) देवकी शान्तिदेवी सुदेवा देवरत्निता
वृकदेवी उपदेवी और सातवीं सुनाम्नी ॥ २९ ॥ उग्रसेनके नौ
पुत्र थे उनमें कंस सबसे पहिले उत्पन्न हुआ था (उनके नाम
इस प्रकार है) न्यग्रोध सुनामा कंक सुभूमिप-शंकु राष्ट्रपाल सुतन्
अनाष्टृष्टि और पुष्टिमान् इनकी स्त्रियोंमें श्रेष्ठ कंसा कंसवती
सुतन् राष्ट्रपाली और कंका नामकी पाँच बहिनें थीं, इस प्रकार
कुकुरवंशमें उत्पन्न हुए उग्रसेन और उनकी सन्तानका वर्णन
करदिया ॥ ३० ॥ ३२ ॥ जो मनुष्य इन अमिन तेनस्वी कुकुरोंके
वंशको पढ़ता है तो उसका वंश बड़ जाता है और वह सन्तान-
वान होजाता है ॥ ३३ ॥ सैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३७ ॥

नैशम्पायन उवाच । भजमानस्य पुत्रोऽथ रथमुत्थयो विदू-
 रथः । राजाधिदेवः शूरस्तु विदूरथसुतोऽभवत् ॥ १ ॥ राजाधि-
 देवस्य सुता जज्ञिरे वीर्यवत्तराः । दत्ताऽतिदत्तवल्किनी शोणाश्वः
 श्वेतवाहनः ॥ २ ॥ शमी च दण्डशर्मा च दण्डशत्रुरथ शत्रु-
 जित् । श्रवणा च श्रविष्ठा च स्वप्तारौ संभूवतुः ॥ ३ ॥ शमी-
 पुत्रः प्रतिज्ञत्रः प्रतिज्ञत्रस्य चात्मजः । स्वयम्भोजः स्वयम्भोजदु-
 ष्टदीकः संवभूव ह ॥ ४ ॥ तस्य पुत्रा बभूवुर्हि सर्वे भीमपरा-
 क्रमाः । कृतवर्माऽग्रजस्तेषां शतधन्वाथ मध्यमः ॥ ५ ॥ देवर्षे-
 र्वचनात्तस्य भिषग्वैतरणश्च यः । सुदान्तश्च विदान्तश्च कामदा
 कामदन्तिका ॥ ६ ॥ देववांश्चाभवत् पुत्रो विद्वान् कम्बलवर्हिपः ।
 असर्माजास्तथा वीरो नासर्माजाश्च तावुभौ ॥७॥ अजातपुत्राय

नैशम्पायजीने कहा- कि-भजमानके रथियोंमें मुख्य विदू-
 रथ नामका सुत हुआ, विदूरथका पुत्र शूर राजाधिदेव हुआ १
 राजाधिदेवके बली दत्त अतिदत्त शोणाश्व श्वेतवाहन शमी
 दण्डशर्मा दण्डशत्रु शत्रुजित् नामक वीरवान् सुत हुए थे और
 इनकी श्रवणा और श्रविष्ठा नामकी दो बहिनें हुई थीं ॥२॥३॥
 शमीके प्रतिज्ञत्र नामक सुत हुआ, प्रतिज्ञत्रके स्वयम्भोज नामक
 सुत हुआ और स्वयम्भोजके हृदीक नामक सुत हुआ ॥ ४ ॥
 उसके सत्र सुत भयंकर पराक्रम करने वाले हुए थे, उनमें कृत-
 वर्मा सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ था और शतधन्वा मध्य सुत
 था ॥ ५ ॥ देवर्षि च्यवनके वचनसे शतधन्वाके भिषग वैतरण
 सुदान्त और विदान्त नाम वाले चार सुत हुए और कामदा
 और कामदन्तिका नाम वाली दो पुत्रियों उत्पन्न हुई थीं ३
 (मरुत्तके सुत) कम्बलवर्हिपके देवान् नामक सुत हुआ तथा
 वीर असर्माजा और नासर्माजा नामके (दो और सुत भी हुए) ७
 (अन्यरुने) सुतहोन राजा असर्माजाको सुदंष्ट्र वारुण्य और

सुतान् प्रददावसमोजसे । सुदंष्ट्रं चारुरूपं च कृष्णमित्यन्धका-
 न्नयः ॥८॥ एते चान्ये च बहवो अन्धकाः कथितास्तत्र । अन्ध-
 कानामिमं वंशं धारयेद्यस्तु नित्यशः ॥ ९ ॥ आत्मनो विप्लवं
 वंशं लभते नात्र संशयः । गान्धारी चैव माद्री च क्रोष्टर्षी
 वभूवतुः ॥ १० ॥ गान्धारी जनयामास अनमित्रं महाबलम् ।
 माद्री युधाजितं पुत्रं ततो वै देवमीदुपम् ॥ ११ ॥ अनमित्रम-
 मित्राणां जेतारमपराजितम् । अनमित्रसुतो निघ्नो निघ्नतो द्वौ
 वभूवतुः ॥ १२ ॥ प्रसेनश्चाथ सत्राजिच्छत्रुसेनाजितावुभौ ।
 प्रसेनो द्वारवत्यान्तु निवसन्त्यां महामणिम् ॥ १३ ॥ दिव्यं स्यमन्तकं
 नाम समुद्रादुपलब्धवान् । तस्य सत्राजितः सूर्यः सखा प्राण-
 समोऽभवत् ॥ १४ ॥ स कदाचिन्निशापाये रथेन रथिनां वरः ।

कृष्ण नाम वाले तीन अन्धक सुत देदिये थे ॥ ८ ॥ ये तथा
 और भी बहुतसे अन्धक तुम्हसे कहदिये, जो मनुष्य नित्यप्रति
 अन्धकोंके इस वंशको सुनता है ॥ ९ ॥ उसका वंश अतिविस्तृत
 होजाता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, क्रोष्टाकी गान्धारी और
 माद्री नाम वाली दो भार्यायें थीं ॥ १० ॥ गान्धारीने
 अनमित्र नाम वाले महाबली सुतको उत्पन्न किया था, माद्रीने
 युधाजित् नाम वाले सुतको उत्पन्न किया था, तदनन्तर देवमी-
 दुपको उत्पन्न किया था ॥ ११ ॥ अपराजित अनमित्र शत्रुओंको
 जीतने वाला था, अनमित्रके निघ्न नामक सुत हुआ, निघ्नके
 प्रसेन और सत्राजित् नामकदो पुत्र उत्पन्न हुए थे, वे दोनों
 शत्रुओंकी सेनाको जीतने वाले थे, द्वारिकापुरीके वसाये जाते
 समय प्रसेनने समुद्रमेंसे स्यमन्तक नाम वाली दिव्य मणि परम्परा
 से पाई थी प्रसेनके संबंधी सत्राजित्का सूर्य प्राणोंकी समान
 प्रिय मित्र था ॥ १३ ॥ १४ ॥ वह रथियोंमें श्रेष्ठ सत्राजित् एक
 समय रात्रि बीतने पर समुद्रके किनारे स्नान कर सूर्योपस्थान

अन्विकूलमुपस्मदुमुपस्थातुं ययौ रविम् ॥ १५ ॥ तस्योपतिष्ठतः
 सूर्यं विवस्वानग्रतः स्थितः । असृष्टमूर्तिर्भगवान् तेजोमण्डलवान्
 प्रभुः ॥ १६ ॥ अथ राजा विवस्वन्तमुवाच स्थितमग्रतः । यथैवं
 ज्योम्नि पश्यामि सदा त्वां ज्योतिषां पते ॥ १७ ॥ तेजोमण्ड-
 लिनं देवं तथैव पुरतः स्थितम् । को विशोपोऽस्ति मे त्वत्तः
 सख्येनोपागतस्य वै ॥ १८ ॥ एतच्छ्रुत्वा तु भगवान् मणिरत्नं
 स्यमन्तकम् । स्वकंठादवमुच्यैव एकान्ते न्यस्तवान् विभुः ॥ १९ ॥
 ततो विग्रहवन्तं तं ददर्श नृपतिस्तदा । भीतिमानथ तं दृष्ट्वा
 मुहूर्तं कृतवान् कथाम् ॥ २० ॥ तमपि प्रस्थितं भूयो विवस्वन्तं
 स सत्रजित् । लोकांनुद्भासयस्येतान् येन त्वं सततं प्रभो । तदे-
 तन्मणिरत्नं मे भगवन् दातुमर्हसि ॥ २१ ॥ ततः स्यमन्तकमणि

करनेको गया था ॥ १५ ॥ उसके उपस्थान करते समय विवस्वान्
 सूर्य उसके सामने आकर खड़े होगए, उस समय तेजोमण्डल
 प्रभु सूर्य असृष्ट मूर्ति धारण कर रहे थे ॥ १६ ॥ तब राजाने
 सामने खड़े हुए सूर्यनारायणसे कहा, कि-हे ज्योतिषां पते !
 मैं आपको जैसे नित्यपति आकाशमें देखता हूँ, तैसे ही मैं
 आपको तेजका मण्डल धारण कर सामने देख रहा हूँ अतः मेरे
 पास आने पर आपकी और मेरी मित्रता होनेमें कसर ही क्या रह
 गई (परन्तु मैंने उसका कोई विशेष फल नहीं पाया) ॥ १७ ॥ १८ ॥
 यह सुनते ही भगवान् सूर्यने अपने कण्ठमेंसे स्यमन्तक नाम
 वाली मणि उतार कर एकान्तमें धरदी १९ तब राजाने सूर्य
 को स्पष्ट अवयवों वाला देखा और उनको देखकर प्रसन्न
 होकर उनसे क्षण भर बात चीतकी ॥ २० ॥ उस समय
 प्रस्थान करते हुए सूर्यसे सत्राजित्ने कहा, कि-हे भगवन् !
 आप जिससे सर्वदा इन तीनों लोकोंको प्रकाशित करते
 रहते हैं हे प्रभो! उस स्यमन्तक मणि को मुझे देदीजिये ॥ २१ ॥

दत्तवांसस्य भास्करः । स तमाचव्य नगरीं प्रविशेश महीपतिः २२
 तं जनाः पर्यधावन्त सूर्योऽयं गच्छतीति ह । पुरीं विस्मायित्वा
 ज राजा त्वन्तःपुरं ययौ ॥ २३ ॥ तत्प्रसेनजितं दिव्यं मणि-
 रत्नं स्यमन्तकम् । ददौ भ्रात्रे नरपतिः प्रेम्णा सत्राजितुत्तमम् २४
 स मणिः स्यन्दते रुमं वृष्णयन्धकनिवेशने । कालार्थं च पर्जन्यो
 न च व्याधिभयं ह्यभूत् ॥ २५ ॥ लिप्सां चक्रे प्रसेनात्तु मणि-
 रत्ने स्यमन्तके । गोविंदो न च तन्लेभे शक्तोपि न जहार सः २६
 कदाचिन्मृगगां यातः प्रसेनस्तेन भूपितः । स्यमन्तककृते सिंहा-
 द्वयं प्राप वनेचरात् ॥ २७ ॥ अथ सिंहं प्रधावन्तमृत्तराजो महा-
 वलः । निहत्य मणिरत्नं तदादाय विज्जम विशत् । २८ ॥ ततो
 वृष्णयन्धकाः कृष्णं प्रसेनवराकारणात् । प्रार्थनां तां मणोर्बुध्वा

तव भास्कर (सूर्य) ने उसको स्यमन्तक मणि देदी, तब वह
 महाबुद्धिमान् उसको बाँध कर नगरमें गया २२ तब तो मनुष्य
 यह मूर्ख हैं यह सूर्य हैं कहने हुए उसके पीछे दौड़े, और राजा
 नगरीको विस्मित करता हुआ अन्तःपुरमें चला गया २३ तद-
 नन्तर राजा प्रसेनजित्ने वह उत्तम मणियोंमें रत्नरूप स्यमन्तक
 मणि प्रेमके कारण अपने भाई सत्राजित्को देदी २४ वह मणि जिस
 वृष्णि और अन्धक कुल वालेके घरमें रहती थी उसके यहाँ वह
 सुवर्णकी वर्षा करती रहती थी और तहाँ पर मेव समयपर
 वर्षा बरसाते थे और तहाँ व्याधिका भय नहीं होता था २५ श्रीकृष्ण
 ने प्रसेनसे मणियोंमें रत्नकी समान दिव्य मणि स्यमन्तक लेनी
 चाही थी, परन्तु उसने नहीं दी श्रीकृष्ण यद्यपि समर्थ थे तब भी
 उन्होंने वह मणि नहीं ली थी २६ प्रसेन उससे भूपित होकर एक
 समय शिकार खेतने गया तहाँ उसको वनमें फिरने वाले सिंहने
 मारडाला २७ तदनन्तर उस दौड़ते हुए सिंहको महाबली अत्र-
 राज मार कर उस मणिरत्नको लेकर अपने भट्टोंमें घुस गया २८

सर्व एव शशंकिरे ॥ २६ ॥ स शंखमानो धर्मात्मा न. कारा
 तस्य कर्मणः । आहरिष्ये मणिमिति प्रतिज्ञाय वनं ययौ ॥ ३० ॥
 यत्र प्रसेनो मृगयामाचरत्तत्र चाप्यथ । प्रसेनस्य पदं गृह्य पुरुषैः
 रामकारिभिः ॥ ३१ ॥ ऋत्तवन्तं गिरिवरं दिव्यं च गिरिमुत्त-
 मम् । अन्वेपयन् परिश्रान्तः स ददर्श महामनाः ॥ ३२ ॥ सारथं
 हतं प्रसेनं चै नाविदन्चेच्छितं मणिम् । अथ सिंहः प्रसेनस्य
 शरीरस्याविदूरतः ॥ ३३ ॥ ऋत्तेण निहतो दृष्टः पादैर्ऋत्तरथ
 सूचितः । पादैरन्वेपयामास गुहामृत्तस्य माधवः ॥ ३४ ॥ मह-
 त्यृत्तविले वाणीं शुभ्राव ममदेरिताम् । धात्र्या कुमारमादाय सुतं
 जाम्बवतो नृप । क्रीडापयन्त्या मणिना मा रोदीरित्यथेरिताम् ३५

उस समय सब वृष्णि और अन्धकोंने यह समझा, कि-श्रीकृष्ण
 ने सत्राजित्से मणि माँगी थी अत एव उन्होंने ही उसको मार
 डाला होगा २? उन्होंने यह कार्य नहीं किया था, तब भी उन
 महात्मा पर ऐसी शंका की जानी थी अतएव उन्होंने प्रतिज्ञाकी,
 कि-“मैं मणि को लाऊँगा” यह प्रतिज्ञा कर वह वन को चले ३०
 उन्होंने विश्वासी मनुष्योंसे जहाँ प्रसेनने शिकार खेला था
 तहाँ उसके पैरोंके चिन्ह होनेका पता पाया ३१ उन महामनस्वी
 ने उसको खोजते २ थकनेके बाद ऋत्तवान् पर्वत और उत्तम
 विन्ध्य पर्वतको देखा ३२ श्रीकृष्णने तहाँ प्रसेनको और उसके
 घोड़ेको मरा हुआ पाया परन्तु उस मणि को तहाँ नहीं पाया,
 परन्तु प्रसेनके शरीरसे थोड़ी दूर पर उन्होंने ऋत्तके द्वारा सिंह
 को मारा हुआ देखा, उसके पैरोंसे प्रतीत हुआ कि-यहाँ ऋत्त
 था, तदनन्तर ऋत्त (रीझ) के पैरोंसे माधवने रीझकी गुहा
 को ढूँढना आरम्भ किया ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ उस समय माधवने ऋत्त
 के बिलके पास पहुँचकर एक स्त्रीको यह कहते सुना, हे राजन!
 धाई जाम्बवान्के कुमारको लेकर मणिसे खिलती हुई उससे

धात्रुवान् । सिंहः प्रसेनपवथीत् सिंहो जाम्बवता इतः । सुकु-
 मारक मा रोदीस्तव ह्ये स्यमन्तकः ॥३६॥ सुन्वक्तीकृतशब्दस्तु
 तूर्ण्यं विलमथाविशत् प्रविश्य चापि भगवांस्तमृत्तविलमंजसा ३७
 स्थापयित्वा विलद्वारि यदून् लागलिना सह । शार्ङ्गधन्वा विलस्थं
 तु जांबवन्तं ददर्श ह ॥ ३८ ॥ यूपुषे वासुदेवस्तु विले जांबवता
 सह । बाहुभ्यामेव गोविंदो दिवसानेकविंशतिम् ॥३९॥ मन्त्रिणे
 तु विलं कृष्णे बलदेवपुरःसरा । पुरीं द्वारवनीमेत्य हतं कृष्णं
 न्यवेदयन् ॥ ४० ॥ वासुदेवस्तु निर्जित्य जांबवन्तं महाबलम् ।
 भेजे जांबवतीं कन्यां ऋत्तराजस्य सम्पताम् । मणिं स्यमन्तकं
 चैव जग्राहात्मविशुद्धये ॥ ४१ ॥ अनुनीयर्त्तराजानं निर्ययौ च
 कह रही थी, कि-तू मत रो ॥ ३५ ॥ धाई कह रही थी, कि-
 सिंहने प्रसेनको मार डाला था, सिंहको जाम्बवान्ने मार डाला,
 हे सुकुमार ! अब तू मत रो ! यह स्यमन्तक मणि अब तेरी ही
 हैं ॥ ३६ ॥ जब इस शब्दसे सब वार्ते स्पष्ट प्रतीत होगई तब
 भगवान् विलमें चुपचाप घुसे तब भगवान्ने बलरामको तथा
 यादवोंको तो भट्टके द्वार पर खड़ा कर दिया था, फिर शार्ङ्ग धनुष
 को धारण करने वाले भगवान्ने गुफामें प्रवेश करके जाम्बवान्
 को देखा ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ विलमें वासुदेवपुत्र गोविन्दने भुजाओं
 से ही इक्कीस दिन तक जाम्बवान्के साथ युद्ध किया था ॥३९॥
 (उपर बहुत समयके उपरान्त) श्रीकृष्णके विलमें प्रवेश कर
 (न लौटनेसे) बलदेव आदिने द्वारिकामें जाकर कहा, कि-
 श्रीकृष्ण मारे गए ॥ ४० ॥ (उपर) भगवान् वासुदेवने महा-
 बली जाम्बवन्तको जीत कर ऋत्तराजकी ध्यारी पुत्री जाम्ब-
 वतीसे विवाह किया और अपनी निर्दोषता सिद्ध करनेके लिये
 स्यमन्तक मणिको भी लेलिया ॥ ४१ ॥ तदनन्तर ऋत्तराजको
 स भक्ता बुक्ता कर विलमेंसे निकल आये और परमशोभासम्पन्न

तदा बलात् । द्वारकामगमत् कृष्णः त्रिधा परमया युतः॥ ४२ ॥
 एवं स मणिमाहृत्य विशोऽध्यात्मानमच्युतः । ददौ सत्राजिते तं
 वै सर्वसात्वतसंसदि ॥ ४३ ॥ एवं मिथ्याभिशाप्तेन कृष्णेना-
 मित्रयातिना । आत्मा विशोऽभितः पापादिनिर्जित्य स्वमन्तकम्४४
 सत्राजितो दश त्वासन् भार्यास्वासां शतं सुताः । ख्यातिमन्त-
 स्रयस्तेषां भंगकारस्तु पूर्वजः ॥ ४५ ॥ वीरो वातपतिश्चैव
 उपस्वाचांश्च ते त्रयः । कुमारश्चापि तिस्रो नै दिक्षु ख्याना
 नराधिप ॥ ४६ ॥ सत्यभामोत्तमा स्त्रीणां व्रतिनी च दृढव्रता ।
 तथा प्रस्वाग्निनी चैव भार्याः कृष्णाय तां ददौ ॥ ४७ ॥ सभात्तो-
 भंगकारिस्तु नारेयश्च नरोत्तमौ । जज्ञाते गुणसम्पन्नौ विश्रुतौ
 रूपसम्पदा ॥४८॥ माद्रीपुत्रस्य जज्ञेऽथ पृश्निः पुत्रो युधाजितः ।

होकर द्वारिकाको चले ॥ ४२ ॥ भगवान् अच्युतने इस प्रकार
 मणिको लाकर सब सात्वतोंकी सभामें अपनी विशुद्धता जता
 कर बड़े मणि सत्राजित्को दे ही ॥ ४३ ॥ शत्रुनाशक श्रीकृष्ण
 ने इस प्रकार मिथ्या दोष लगानेके कारण स्वमन्तक मणिको
 गीतकर खानेके बाद अपने आपेको विशुद्ध ममाणित कर दिया
 था ॥ ४४ ॥ सत्राजित्के दश भार्यायें थीं, उनमें सौ पुत्र उत्पन्न
 हुए थे, उनमें तीन प्रसिद्ध थे, उनमें भंगकार पहिला था॥४५॥
 दूसरा वीर वातपति था और तीसरा उपस्वाचान् था, हे राजन्!
 उसने ये तीनों कुमार दिशाओंमें प्रसिद्ध थे (उसभीपुत्रियोंमें)
 सत्यभामा व्रतिनी दृढव्रता और प्रस्वाग्निनी तीन दिशाओंमें
 प्रसिद्ध थीं, उसने उनको श्रीकृष्णकी भार्या बना दिया था४६
 (श्व क्रोष्टाकी कनिष्ठा छोटी स्त्री माद्रीके पुत्र युधाजित्के वंशको
 कहते हैं) माद्रीपुत्रके सभात्तोभागकारि और नारेय नामक
 सर्वगुणसम्पन्न और रूपसम्पत्ति वाले पुत्र उत्पन्न हुए थे, इस
 के उपरान्त युधाजित्के पृश्निनामक पुत्र हुआ, पृश्निके स्वफल्क

जज्ञाते तनयौ पुरनेः श्वरुक्कश्चिरकस्तथा ॥ ४६ ॥ श्वरुक्कः
 काशिराजस्य सुतां भार्यामचिन्दन । गांदिनी नाम तस्याश्च सदा
 गाः मद्दौ रिता ॥ ५० ॥ तस्यां जज्ञे महाबाहुः श्रुतयानिति
 विभ्रुतः । अक्रूरोऽथ महाभागो यज्वा विपुलदक्षिणः ॥ ५१ ॥
 उपमद्गुस्तथा मद्गुर्मुद्गुश्चारिमेजयः । गिरिक्षिपस्तथोपेक्षः
 शत्रुहा चारिमर्दनः ॥ ५२ ॥ धर्मभृच्चापि धर्मी च मृध्रमोजान्त-
 कस्तथा । आवाहप्रतिवाहौ च सुन्दरी च वरांगनी ॥ ५३ ॥
 विश्रुता साम्बमहिषी कन्या चास्य वसुन्धरा । रूपयौवनसंपन्ना
 सर्वसत्त्वमनोहरा ॥ ५४ ॥ अक्रूरेणोग्रसेनायां तु सुतौ द्वौ कुरु-
 नन्दन । सुदेवश्चोपदेवश्च जज्ञाते देववर्चसौ ॥ ५५ ॥ चित्रकस्या-
 भवन् पुत्राः पृथुर्विपृथुरेव च । अश्वसेनोऽश्वबाहुरश्च सुपारश्वक-
 मवेणौ ॥ ५६ ॥ अरिष्टनेमैश्च सुता धर्माधर्मभृदेव च । सुबाहु
 और चित्रक नामक पुत्र हुए थे ॥ ४६ ॥ श्वरुक्कने काशिराजकी
 पुत्री गांदिनी नाम वाली स्त्री पाई थी, उसका पिता उससे
 प्रतिदिन गोदान कराता था ५० ॥ उससे महाभुन और शास्त्रज्ञ
 रूपसे प्रसिद्ध अक्रूर नामक पुत्र हुआ, वह महाभाग यजन करने
 वाला और बड़ी र दक्षिणार्धे देने वाला था ॥ ५१ ॥ (इसके
 अतिरिक्त उसके) उपमद्गु मद्गु मुद्गु अरिमेजय गिरिक्षिप
 उपेक्ष शत्रुहा अरिमर्दन धर्मभृत् धर्मी मृध्रम अजान्तक आवाह
 प्रतिवाह (नामक पुत्र तथा) सुन्दरी नाम वाली स्त्रियोंमें श्रेष्ठ
 कन्या हुई थी ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ वह सांव देशके राजाकी रानी
 प्रसिद्ध है और इसकी कन्याका नाम वसुन्धरा है, वह रूप और
 यौवन वाली थी और सब प्राणियोंके मनको खेंचने वाली थी ५४
 हे कुरुनन्दन ! अक्रूसे उग्रसेनामें देवताकी समान कान्ति वाले
 सुदेव और उपदेव नाम वाले दो पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥ ५५ ॥
 चित्रकके पृथु विपृथु अश्वसेन अश्वबाहु सुपारश्वक और गवे-

वहुवाहु रच श्रविष्ठाश्रवणं स्त्रियो ॥ ५७ ॥ इमां मिथ्याऽभिशास्ति
यः कृष्णस्य समुदाहताम् । वेद मिथ्याभिशापास्तं न स्पृशन्ति
कदाचन ॥ ५८ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो हरिवंशपर्वणि
अष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

वैशम्पायन उवाच । यत्तत्सत्राजिते कृष्णो मणिरत्नं स्पमंत-
कम् । अदात्तद्वारयापास वभ्रुर्वं शतधन्वना ॥ १ ॥ सदा हि
प्रार्थयामास सत्यभामामनिदिताम् । अक्रूरोतरगन्विच्छन् मणि-
ञ्चैव स्पमन्तकम् । सत्राजितं ततो हत्वा शतधन्वा महाबलः ।
रात्रौ तं मणिमादाय ततोऽक्रूराय दत्तवान् ॥३॥ अक्रूरस्तु ततो
रत्नमादाय भरतर्षभ । समयं कारयांचक्रे नावेद्योहं त्वयेत्युतऽ
वयमभ्युपयोत्स्यामः कृष्णेन त्वामभिद्रुतम् । ममाद्य द्वारका सर्वा

पण नामक पुत्र हुए ॥ ५६ ॥ अरिष्टनेमिके धर्माधर्मभृत् सुबाहु
और बहुबाहु नामक पुत्र थे और श्रविष्ठा श्रवणा नामकी दो
स्त्रियें थीं ॥ ५७ ॥ जो पुरुष श्रीकृष्णको मिथ्या ही लगे हुए
इस दोषको जान लेता है उसको भूठे दोष कभी नहीं लगते
हैं ॥ ५८ ॥ अइनीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३८ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-श्रीकृष्णने सत्राजितको जो मणि
लौटा कर देदी थी वभ्रु (अक्रूर) उसको शतधन्वाके द्वारा
चुरवाना चाहने लगा ॥ १ ॥ अक्रूर (मणि सुवर्ण देनी थी
इस कारण उसको चाहता हुआ) स्पमन्तकके लिये सत्यभामा
से सदा प्रार्थना करता रहता था ॥ २ ॥ एक समय महाबली
शतधन्वाने रात्रिमें सत्राजितको मार कर मणि लाकर अक्रूरको
दे दी ॥ ३ ॥ हे भरतर्षभ ! उस समय अक्रूरने रत्न लेकर शत-
धन्वासे प्रतिज्ञा करा ली, कि-तू यह न बताना कि-मेरे (अक्रूर)
के पास मणि है ४ जब श्रीकृष्ण तेरे पीछे पड़ेंगे तब हम भी तेरे

वशे निष्ठत्यसशयम् ॥ ५ ॥ इते पितरि दुःखार्ता सत्यभामा
 यशस्विनी । प्रययौ रथमाह्वय नगरं वारण वनम् ॥ ६ ॥ सत्य-
 भामा तु तद्दृष्टं भोजस्य शतधन्वनः । भर्तुर्निवेश्य दुःखार्ता
 पारर्वस्थाऽश्रूण्यवर्तपत् ॥ ७ ॥ पाण्डवानां तु दग्धानां हरिः कृत्वोदर-
 क्रियाम् । कुट्यार्थं चापि पाण्डूनां न्ययोजयत् सात्यकिम् ८
 ततस्त्वरितमागत्य द्वारकां गधुमूदनः । पूर्वजं हस्तिनं श्रीमानिदं
 वचनमब्रवीत् ॥ ९ ॥ इतः मसेनः सिंहेन सत्राजिच्छतधन्वना ।
 स्पमन्तकः स मद्रामी तस्य प्रभुरहं विभो ॥ १० ॥ तदारोह रथं
 शीघ्रं भोजं हत्वा महाबलम् । स्पमन्तको महाब्रह्मो ह्यस्माकं स
 भविष्यति ॥ ११ ॥ ततः प्रवृत्ते युद्धं तुमुलं भोजकृष्णयोः । शत-

साथमें होकर लड़ेंगे आज कल सब द्वारिका मेरे ही वशमें है,
 इसमें तुम कुछ सन्देह न समझो ॥ ५ ॥ सत्यभामा पिताके
 मारे जाने पर बड़ी दुःखी हुई और रथमें चढ़ कर हस्तिनापुर
 को चली गई ॥ ६ ॥ वहाँ सत्यभामाने अपने पतिके पास खड़े
 होकर भोजवंशी शतधन्वाकी करतूत सुनाई और उनके पास
 खड़ी होकर नेत्रोंसे आँसू बहाने लगी ॥ ७ ॥ उस समय श्रीकृष्ण
 भस्म हुए पाण्डवोंकी उदकक्रिया कर चुके थे, इसके उपरान्त
 उन्होंने पाण्डवोंका अस्थिसञ्चयन करनेके लिये सात्यकिको
 छोड़ दिया ॥ ८ ॥ इसके उपरान्त श्रीकृष्णने वृत्त ही द्वारिका-
 पुरीमें आकर अपने बड़े भाई हल परसे यह बात कही, कि—९।
 मसेनको सिंहेने मार डाला था शतधन्वाने सत्राजितको मार
 डाला अब यह स्पमन्तक मणि मुझमें मिला ही चाहिये हे विभो !
 अब तो मैं उसका स्वामी हूँ, इसलिये अब आप शीघ्र ही रथ पर
 सवार हूजिये, हे महाभुज ! अब महाभुज भोजको मारनेके बाद
 स्पमन्तक मणि हमारी होगी ११ तदनन्तर श्रीकृष्ण और शत-
 धन्वामें तुमुल युद्ध होने लगा, तब तो शतधन्वा सब दिशाओंमें

धन्वा ततोऽक्रूरमवैत्तत् सर्वतो दिशम् ॥१२॥ संरन्ध्रौ तावुभौ
दृष्ट्वा तत्रभोजनार्दना । शक्तोऽपि शाब्द्याद्भार्दिक्यमक्रूरो नाभ्यु-
पच्यत ॥१३॥ अपयाने ततो युद्धि भोजरचक्रे भयार्दितः । योज-
नानां शतं सार्धं हयया प्रत्यपच्यत ॥ १४ ॥ विख्याता हृदया
नाम शतयोजनगामिनी । भोजस्य बडवा राजन् यया कृष्ण-
मयोधयत् ॥ १५ ॥ क्षीणां जवेन च हयामध्वनः शतयोजने ।
दृष्ट्वा रथस्य तां वृद्धिं शतधन्वानमार्दयत् ॥ १६ ॥ ततस्तस्या
हयायास्तु श्रमात् खेदाच्च भारत । खमुत्पेतुरथ प्राणाः कृष्णो
राममथान्वीत् ॥१७॥ तिष्ठस्वेह महाबाहो दृष्ट्वा दोषा हया मया ।
पद्भ्यां गत्वा हरिण्यामि मणिरत्नं स्पमन्तकम् ॥ १८ ॥ पद्भ्या-
मेव ततो गत्वा शतधन्वानमच्युतः । मिथिलामभितो राजन्

अक्रूरको देखने लगा ॥१२॥ इस समय शतधन्वा और श्रीकृष्ण
को क्रोधमें भरा देखकर अक्रूर समर्थ होने पर भी शठताके
कारण उसकी सहायता करने नहीं गया १३ तब तो भयसे घब-
ड़ाया हुआ भोज भागनेका विचार करने लगा, और वह घोड़ी
पर चढ़ कर चार सौ केसको भागा १४ जिस घोड़ी पर उसने
श्रीकृष्णसे युद्ध किया था हे राजन् ! भोजकी उस घोड़ीका नाम
हृदया था और वह सौ योजन चलने वाली थी १५ घोड़ी वेग
से चलनेके कारण सौ योजन पहुँचनेसे पहिले ही थक गई इस
वातको देखकर श्रीकृष्णने अपना रथ बढ़वाया और शतधन्वा
को पीड़ित करने लगे १६ इसके उपरान्त हे भारत ! उस घोड़ी
ने खेद और श्रमके कारण अपने प्राणोंको छोड़ दिया उसके
माण आकाशमें ही उड़ गए, तदनन्तर श्रीकृष्णने बलरामसे
कहा, कि-१७ हे महाभुज ! घोड़े थक गए हैं, उनका यह दोष
मेंने देख लिया है अतः आप यहाँ ही टहरिये अब मैं पैदल
जाकर ही मणिरत्न रूप स्पमन्तक मणिको लाऊँगा १८

जघान परमास्त्रविन् ॥ १९ ॥ स्यमन्तकं च नापश्यद्धत्वा भोजं
 महाबलम् । निवृत्तं चाब्रवीत् कृष्णं रत्नं देहीति लागली ॥ २० ॥
 नास्तीति कृष्णश्चोवाच ततो रामो रूपःनितः । भिक्शब्दम-
 सकृत् कृत्वा मत्स्युवाच जनार्दनम् ॥ २१ ॥ भ्रातृन्वान्मर्षयाम्येष
 स्वस्ति तेऽतु व्रजाम्यहम् । कृत्यं न मे द्वारकया न त्वया न च
 वृष्णिभिः ॥ २२ ॥ मन्त्रिवेश ततो रामो मिथिलानरिगर्दनः ।
 सर्वाकामैश्चचितैर्भैथिलेनाभिपूजितः । पूतस्मिन्नेव काले तु वभ्रु-
 र्मतिमतां वरः । नानारूपान् क्रतून् सर्वानागहार निरर्गलान् २४
 दीक्षापर्यं सकवचं रत्नार्थं मन्त्रिवेश ह । स्यमन्तककृते प्राज्ञो गांदी-
 पुत्रो महायशः ॥ २५ ॥ अथ रत्नानि चान्यानि द्रव्याणि त्रिवि-
 धानि च । पष्टिं वर्षाणि धर्मात्मा यज्ञेषु विनियोजयत् ॥ २६ ॥

हे राजन् ! उस समय अस्त्रविद्याके पारगापी श्रीकृष्णने मिथिला
 नगरीके पास पैदल पहुँचकर शत्रुधन्वाको मार डाला ॥ १९ ॥
 परन्तु महाबली भोजको मारने पर भी श्रीकृष्णको स्यमन्तक
 मणि दिखाई नहीं दी, श्रीकृष्णके लौटने पर बलरामने उनसे
 कहा, कि-रत्न दीजिये २० तब श्रीकृष्णने कहा, कि-मणि तो
 तहाँ नहीं मिली तब तो बलरामने क्रोधमें भर कर धारम्भार
 धिक्कार है २ कह कर श्रीकृष्णसे कहा, कि-१२१। आप मेरे
 भाई हैं इस लिये मैं आपकी इस करतूतको सह रहा हूँ आपका
 कल्याण हो, मुझे द्वारिका वृष्णि और तुमसे भी अब कुछ काम
 नहीं है २२ तदनन्तर शत्रुओंको दमन करने वाले राम मिथिला-
 पुरीमें घुसे तब सब कामनाओंसे पूर्ण मिथिलाके राजाने उनकी
 पूजाकी २३इसी समय युद्धिपार्श्वमें श्रेष्ठ वभ्रु ने अनेक प्रकारके
 सब यज्ञोंको किया २४ महायशस्वी गांदीपुत्रने स्यमन्तकके लिये
 दीक्षारूपी कवचको पहिर लिया था (अर्थात् यज्ञमें दीक्षा लेने
 वालेको युद्ध करनेका अधिकार नहीं है) २५ उस समय उस

अक्रूरयज्ञा इति ते ख्यातास्तस्य महात्मनः । बहून्नदक्षिणा
 सर्वे सर्वाकामपदायिनः । अथ दुर्गोधनो राजा गत्वा तु मिथिला
 प्रभुः । गदाशिक्षां ततो दिव्यां बलभद्रादवाप्तवान् ॥ २८ ॥
 प्रसाद्य तु ततो रामो वृष्णयन्धरुगदारथैः । आनीतो द्वारकामेव
 कृष्णेन च महात्मना ॥ २९ ॥ अक्रूरस्त्वांधकैः भार्गवपाया-
 द्भरतर्षभ । हत्वा सत्राजितं युद्धे सहवन्धुं महाबलम् ॥ ३० ॥
 ज्ञातिभेदभयात् कृष्णस्तमुपेक्षितवानथ । अगयाते तथाऽक्रूरे
 नावर्षत् पाकशासनः ॥ ३१ ॥ अनादृष्ट्या यदा राज्यमभव-
 द्बहुधा कृशम् । ततः प्रसादापामसुरक्रूरं कुकुरांधकाः ॥ ३२ ॥
 पुनर्द्वारवर्ती प्राप्ते तस्मिन् दानपती ततः । प्रववर्ष सहस्राक्षः
 रुन्द्रे जलनिधेभ्यदा ॥ ३३ ॥ कन्यां च वासुदेवाय स्वसारं
 धर्मात्माने सःठ वर्षं तक्र यज्ञीमें रत्न और द्रव्य दिये थे २६ वे
 बहून्सी अन्न और दक्षिणा वाले तथा बहूत्सी कामनाओंको पूर्ण
 करने वाले सब यज्ञ अक्रूरयज्ञ कहलाते हैं २७ इसी समय प्रभु
 दुर्गोधनने मिथिलापुरीमें जाकर बलभद्रजीसे दिव्य गदाशिक्षा
 पाई थी ! २८ । इसके उपरान्त वृष्णि और अन्यकुन्वांशी महा-
 रथियोंने और महात्मा श्रीकृष्णने बलरामजीको प्रसन्न कर
 द्वारिकामें बुला लिया था ॥ २९ ॥ हे भरतर्षभ ! तदनन्तर
 अक्रूर अपने (कुटुम्बके) भन्धकोंको साथमें लेकर भाग गया
 था, महाबली सत्राजितको और उसके भाइयोंको मारनेके अनन्तर
 श्रीकृष्णने जातिमें विगण्डा पड़नेके भयसे अक्रूरकी उपेक्षा कर
 दी थी, परन्तु अक्रूरके चले जाने पर इन्द्रने वर्षा करना बन्द
 कर दिया था ॥ ३० ॥ ३१ ॥ जब अनादृष्टि होनेसे राज्य
 (के मनुष्य) प्रायः दुर्बल होने लगे, तब कुकुर और अन्यकु-
 वंशियोंने फिर उसको प्रसन्न किया ॥ ३२ ॥ उस दानपतिके
 द्वारकापुरीमें फिर आते ही सहस्राक्ष इन्द्रने समुद्रके किनारे पर

शीलसम्पताम् । अक्रूरः प्रददौ धीमान् प्रीत्यर्थं कुरुनन्दन ॥३४॥
 अथ विज्ञाय योगेन कृष्णो बभ्रुगतं मणिम् । सभामभ्यगतं प्राह
 तमक्रूरं जनार्दनः ॥३५॥ यत्तद्रत्नं मणिवर तव हस्तगतं विभो ।
 तत् प्रयच्छस्व मानार्हं मयि मानार्थकं कृथाः ॥ ३६ ॥ षष्टिवर्षे
 गते काले यद्रोषोऽभून्ममानघ । स संखडोऽसकृत् प्राप्तस्ततः काला-
 त्ययो महान् ॥३७॥ ततः कृष्णस्य वचनात् सर्वसात्वतसंसदि ।
 प्रददौ तं मणिं बभ्रुरक्लेशेन महामतिः ॥३८॥ ततस्तमार्जवभासां
 बभ्रोर्हस्तादरिन्दमः । ददौ हृष्टमनाः कृष्णस्तं मणिं बभ्रवे पुनः ३९
 स कृष्णहस्तात् संप्राप्तं मणिरत्नं स्यमन्तकम् । आचम्य गांदिनी-
 पुत्रो विरराजाशुमानिव ॥ ४० ॥ यस्त्वेवं श्रृणुयान्नित्यं शुचि-

वर्णा करना आरम्भ कर दिया ॥ ३३ ॥ और हे कुरुनन्दन !
 फिर बुद्धिमान् अक्रूरने अपनी शीलसम्पन्न बहिन कन्याका
 वासुदेवके साथ उनको प्रसन्न करनेके लिये विवाह कर दिया
 था ॥३४॥ इसके उपरान्त श्रीकृष्णने योगके द्वारा अक्रूरके पास
 मणि है यह जानकर सभामें बैठेहुए अक्रूरसे कहा कि—॥३५॥
 हे विभो ! जो मणिरत्न स्यमन्तक तुम्हारे पास है, हे मानार्ह !
 आप उसको देदीजिये, और अनार्यताका वर्तन न करिये ३६
 हे अनघ ! साठ वर्ष पहिले जिस कारणसे मुझे रोप चढ़ा था,
 वह बहुत समय पहिलेका रोप मुझे जिस कारण चढ़ा था उस
 को मुझे देदीजिये ॥ ३७ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्णके कहनेसे महा-
 बुद्धिमान् अक्रूरने सब सात्वतोंकी सभामें वह मणि बिना कष्ट
 पाये हुए ही श्रीकृष्णके अर्पण करदी ॥३८॥ तदनन्तर अरि-
 न्दम श्रीकृष्णने सरलतासे मणि देनेवाले अक्रूरको ही वह मणि
 प्रसन्न होकर फिर देदी ॥ ३९ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्णके हाथसे
 मिली हुई मणिको चोंकर गान्दिनीतुत्र अक्रूर सूर्यकी समान
 शोभा पाने लगा ॥ ४० ॥ जो मनुष्य पवित्र हाकर और सान

भूत्वा सपाहितः । सुखानां सकलानां च फलभागिह जायते ४१-
आव्रज्जभुवनाच्चापि यशःख्यातिर्न संशयः । भविष्यति नृपश्रेष्ठ
सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥ ४२ ॥

इति श्रीमहाभारते बिलेषु हरिवंशो हरिवंशपर्वणि स्यमन्त-
काख्यानं नाम एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

जनपेजय उवाच । मादुर्भावान् पुराणेषु विष्णोरमिततेजसः ।
सतां कथयतामेव वाराह इति नः श्रुतम् ॥ १ ॥ न जाने तस्य
चरितं न विधिं नैव विस्तरम् । न कर्मगुणसन्तानं न हेतुं न
मनीषितम् ॥२॥ किमात्मको वराहः स का मूर्तिः का च देवता ।
धान होकर इसको सुनता है उसको सम्पूर्ण सुखोंका फल मिलना
है ॥ ४१ ॥ और नृपश्रेष्ठ ! उसकी कीर्ति ब्रह्मलोक तक फैल
जाती है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, यह बात मैं तुम्हसे सत्य
कहता हूँ ॥ ४२ ॥ उन्तालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥

जनपेजयने कहा, कि सज्जनोंके मुखसे मैंने पुराणोंकी कथा
कहते समय अमित तेजस्वी विष्णुके अवधारोंमें वराह अवतारकी
भी बात सुनी है (वराह शब्दका अध्यात्मिक अर्थ वर-श्रेष्ठ
और अह अर्थात् यज्ञ है अर्थात् वराह शब्दका अर्थ श्रेष्ठयज्ञ
है) ॥१॥ परन्तु मैं उनके चरित्रको अर्थात् सब कार्योंके जन-
कत्वको और (अपूर्व स्वरूपका आविष्कार करनेकी) विधि
को और उनके विस्तारको अर्थात् कर्तव्यको और उनकी कर्म
गुणसन्तानको अर्थात् उनके कर्मसे तृप्त होने वाले देवता आदि
को अर्थात् वह किस देवताको प्रसन्न करनेके लिये तप करते हैं
तथा उनका देश द्रव्य काल आदिकी प्रयोग विधिको और उनके
हेतुको अर्थात् अधिकारको तथा उनके मनीषितको अर्थात् वह
किस लिये त्यागात्मकस्वरूपको सम्पादन करना चाहते हैं, इस
को मैं कुछ नहीं समझता (अतः आप मुझे यह सब बातें सम-

किमाचारः प्रभावो वा किं वा तेन पुराकृतम् इयज्ञार्थं समवेतानां
मिपतां च द्विजन्मनाम् । महावराहचरितं कृष्णद्वैपायनेरितम् ४
यथा नारायणो ब्रह्मन् वाराह रूपमास्थितः । दंष्ट्रया गां समुद्र
स्थामुज्जहारारिसूदनः ॥५॥ विस्तरेणैव कर्माणि सर्वाणि रिपु-
घातनः । श्रोतुमिच्छाम्यशेषेण हरेः कृष्णस्य धीमतः ६ कर्मणा-
मानुपूर्व्याच्च प्रादुर्भावाच्च ये विभोः । वाचास्य प्रकृतिर्ब्रह्मस्तां
च व्याख्यातुमर्हसि ७ कथं च भगवान् विष्णुः सुरशत्रुनिपूदनः ।
वसुदेवकुले धीमान् वासुदेवत्वमागतः ॥ ८ ॥ अमरैराहतं पुण्यं

भाइये ॥ २ ॥ (इस प्रकार वराहस्वरूपके अभियज्ञस्वरूपको
बुझनेके अनन्तर अब राजा जनमेजय उनके आधिदेविक स्व-
रूपको बुझ ॥ है कि—) उन वराहका वास्तविक स्वरूप क्या
है ? और उनकी मूर्ति (वाहरी आकृति) कैसी है और देवता
कौन है (अर्थात् उनका अधिष्ठाता कौन है ?) और उनका
कर्तव्य कौनसा है ? और उनकी सामर्थ्य कैसी है ? ॥ ३ ॥ मैंने
कृष्ण द्वैपायनका कहा हुआ महावराहका चरित्र यज्ञमें आये हुए
ब्राह्मणोंके होड़ करने पर सुना है (परन्तु मैं उसके तत्त्वको
नहीं जानता हूँ) ॥४॥ हे ब्रह्मन् ! भगवान् नारायणने जिस
प्रकार वराहरूप धारण किया था और उन अरिसूदनने जिस
प्रकार अपनी डाढ़ (दाँत) से समुद्रोंमेंसे पृथ्वीका उद्धार किया
था ॥ ५ ॥ वह मैंने पहिले सुन लिया रिपुनाशक बुद्धिमान्
भगवान् श्रीकृष्णके सब कर्मोंको मैं विस्तारपूर्वक पूर्णरीतिसे
सुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ हे ब्रह्मन् ! इस विष्णुके प्रादुर्भावको
और आरम्भसे लेकर अन्त तकके इनके कर्मोंको और इनकी
(वराहरूपके समय समुद्रमें) जो प्रकृति थी उसकी आप कृपा
कर व्याख्या करिये ॥ ७ ॥ देवताओंके शत्रुओंका नाश करने
वाले बुद्धिमान् भगवान् विष्णु वसुदेवके कुलमें उत्पन्न होकर

पुण्यकृद्भिर्निर्गेषितम् । देवलोकं समुत्सृज्य मर्त्यलोकमिहागतः ६
 देवमानुषयोर्नेतां यो भुः प्रभवां विशुः । किमर्थं दिव्यमात्मानं
 मानुष्ये संन्ययोजयत् ॥ १० ॥ यश्चक्रं वर्णयत्येको मानुषाणा-
 मनामयम् । मानुष्ये स कथं बुद्धिं चक्रे चक्रभृतां वरः ॥ ११ ॥
 गोपायनं यः कुरुते जगत् सार्वलौकिकम् । स कथं गां गतो देवो
 विष्णुर्गोपित्वमागतः ॥ १२ ॥ महाभूतानि भूनात्मा यो धार
 चकार च । श्रीगर्भः स कथं गर्भे स्त्रिया भूचरया धृतः ॥ १३ ॥

वामुदेव क्यों कहलाए थे (अर्थात् वह कर्मबन्धनसे हीन होने
 पर भी उत्तम स्थानसे नीचे स्थानमें क्यों आगये थे) ॥ ८ ॥
 वह देवताओंसे धिरे हुए और पुण्यात्माओंसे सेवित पवित्र देव-
 लोकको छोड़कर इस मृत्युलोकमें आए थे ॥ ९ ॥ (यदि आप
 यह कहें, कि-वह अपने किसी प्रयोजनको सिद्ध करने नहीं आये
 थे-उन्होंने तो लीला करनेके लिये ही अवतार धारण किया था
 यह कहना भी उचित प्रतीत नहीं होना, क्योंकि लीलामें जन्म
 लेना अपरिहार्य होनेसे इसका भी कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य
 होना चाहिये ? परन्तु परमानन्दरूपको तो कोई प्रयोजन होता
 ही नहीं है राजा परीक्षितने इस श्लोकमें यही आक्षेप किया है कि
 जो देवता और मनुष्योंके नेता हैं और जो विशु पृथिवीके उत्पत्ति
 स्थान हैं उन्होंने अपनी आत्माको मनुष्य शरीरमें क्यों स्थापित
 किया था ? ॥ १० ॥ जो इकले ही सब मनुष्योंके चक्रो निरा-
 मयरीतिसे चलाता है उन चक्र धारियोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णने मनुष्य
 बननेका विचार क्यों किया था ॥ ११ ॥ जो जगत्के सब मनु-
 ष्योंकी रक्षा करते हैं, वह भगवान् विष्णु पृथिवी पर आकर
 गोप कैसे बनगये थे ॥ १२ ॥ जिन महात्माने महाभूतोंको धारण
 किया है और रचा है ऐसे श्रीगर्भको पृथिवीमें विचरण करने
 वाली स्त्रीने अपने गर्भमें किस प्रकार धारण किया था ॥ १३ ॥

येन लोकान् क्रमैर्जित्वा त्रिभिस्त्रीस्त्रिदशोत्सया । स्थापिता जगतो
मार्गास्त्रिर्गर्गभवास्त्रयः ॥ १४ ॥ यौतकाले जगत् पीत्वा कृत्वा
तोषमथं वपुः । लोकमेकार्णवं चक्रे दृश्यादृश्येन वर्त्मना ॥ १५ ॥
यः पुराणे पुराणात्मा वाराहं रूपमास्थितः । त्रिपाणाग्रेण वसुधा-
मुज्जहारारिसूदनः १६ यः पुरा पुरुहूनाथं त्रैलोक्यमिदमन्वयः ।

जिन्होंने देवताओंकी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये तीन चरणोंसे
तीनों लोकोंको जीतकर धर्म अर्थ और कामसे होनेवाले तीन
मार्ग स्थापित करदिये थे [अर्थात् जगत्में धर्मका पालन करने
से स्वर्ग मिलता है, अर्थसे भूलोकके काम सिद्ध होते हैं और
कामसे अधोलोक मिलता है, इस प्रकार तीनोंसे तीन मार्गोंकी
प्राप्ति होती है) ॥ १४ ॥ जो भगवान् पलकालके समय दृश्य
और अदृश्य रीतिसे सम्पूर्ण जगत्का पान करके अपने शरीर
को जलपय बना सम्पूर्ण जगत्को एक जलपय ही करदेते हैं
[अर्थात् जो पलकालके समय पञ्चभूतात्मक जगत्को उनके
कारण सहित पानकर आने जलपय रूपसे अर्थात् अपने निर्वि-
शेष चिन्मात्ररूपसे स्थित रहते हैं “तत्रैव सलिल एको द्रष्टा” इस
श्रुतिमें सलिलको द्रष्टा माना है अतएव उन्होंने ऐसा करके लोकको
जलपय ही करदिया अर्थात् सब चिन्मात्र है ऐसी भावनासे तन्मात्र
ही अवशिष्ट रखते हैं, वह दृश्यादृश्यरूप मार्गसे ऐसा करते हैं
अर्थात् दृश्य अदृश्य चिद ॥ जडांश चिदचिद्रूपधिरूप जीव
रूपमार्ग से ऐसा करते हैं, भाव यह है कि-जो अहं
कारका आश्रय लेकर सबको रचते है उसीसे संहार करतेहुए
उस मार्ग नामवाली सरणिका भी संहार करडालते हैं ॥१५॥
प्राचीन समयमें जिन पुराणात्मा अरिसूदन भगवान्ने वराहके
रूपमें अपने दाँतसे पृथ्वीका उद्धार किया था ॥ १६ ॥ पहिले
जिन अवयव सुरसत्त्वने इन्द्रके लिये असुरोंको जीत कर देव-

ददौ जित्वा सुरगणान् सुराणां सुरसत्तमः ॥ १७ ॥ येन स
वपुः कृत्वा द्विधा कृत्वा च तत् पुनः । पूर्वं दैत्यो महावीर्यो हि
एयकशिपुर्हनः ॥ १८ ॥ यः पुरा ह्यनलो भूत्वा और्वः संवर्तत
त्रिभुः । पातालस्थोऽर्णवगतं पपी तापमयं हविः ॥ १९ ॥ सहस्र
शिरसं ब्रह्मन् सहस्रारं सहस्रदम् । सहस्रश्चरणं देवं यमाहुर्वं पु
पुगे ॥ २० ॥ नाभ्यास्त्रयां समुत्पन्नं यस्य पैतामहं वृहम् । एकाण्यं
वज्रलस्यस्य नष्टे स्थावरजंगमे ॥ २१ ॥ येन ते निहता दैत्याः संग्रामं
तारकामये । सर्वदेवमयं कृत्वा सर्वायुधधरं वपुः ॥ २२ ॥
गरुडस्थेन चोत्सिक्तः कालनेमिर्निपातितः । निजितश्च मयो दैत्य-
स्तारकश्च महासुरः ॥ २३ ॥ उत्तरानि समुद्रस्य त्रीरोदस्यामृतो-
ताम्रौको तीनों लोक देदिये धे ॥ १७ ॥ जिन्होंने पहिले सिंह
का स्वरूप धारण कर फिर उसको दो प्रकारका कर अर्थात्
नरसिंहरूप बनाकर महावीर्यवान् दैत्य हिरण्यकशिपुको मार
डाला था ॥ १८ ॥ जिन त्रिभुने पहिले और्ववंशी सम्बर्तक अग्नि
का रूप धारण करके पातालमें स्थित समुद्रके जलरूप हविका
पान किया था ॥ १९ ॥ जिन (अनिरुद्ध नाम वालेको) सब अस्त्र-
ताररूपी बिन्दुओंके मूलभूत महासमुद्ररूपके प्रत्येक युगमें सहस्र
(अनन्त) चरणों वाले सहस्र शिर वाले सहस्र अरेवाले और
सहस्रोंकी दक्षिणा देनेवाले देव कहते हैं ॥ २० ॥ स्थावर जंग-
मात्मक जगत्के लीन होने पर जिन एक समुद्रमय जलमें स्थित
पुरुषके नाभिरूप बनमें पितामहका घर (कमल) उत्पन्न हुआ
था ॥ २१ ॥ जिन्होंने तारकामय संग्राममें अपने शरीरको सर्व-
देवमय और सब प्रायुधोंसे व्याप्त बना कर दैत्योंको मार डाला
था ॥ २२ ॥ और जिन्होंने गरुड पर बैठ कर बड़े हुए कालनेमि
को गिरा दिया था और जिन्होंने मय-दैत्य और महान् असुर
तार १।सुरको मार डाला था २३ और जो त्रीरोद समुद्रके उत्तर

दधेः । यः शते शारवतं योगमास्थाय तिमिरं महत् ॥२५॥ सुरा-
 रणिर्गर्भमथत्त दिव्यं तपःप्रकर्पादितिः पुराणम् । शक्रं च यो
 दैत्यगणावहृदं गर्भावसाने निभृतं चकार ॥ २५ ॥ पदानि यो
 लोकमयानि कृत्वा चकार दैत्यान् सलिलेशयास्तान् । कृत्वा च
 देवास्त्रिदिवस्य देवांश्चक्रे सुरेशं त्रिदशाधिपत्ये ॥२६॥ पात्राणि
 दक्षिणा दीक्षा चमसोलूखलानि च । गार्हपत्येन विधिना अन्वा-
 हार्येण कर्मणा २७ अग्निमाहवनीयं च वेदीं चैव कुशां सुवम् ।
 प्रोक्षणीयं ध्रुवां चैव आबभृथ्यं तथैव च ॥२८॥ सुभात्रीणि च
 यश्चक्रे हव्यकव्यमदान् द्विजान् । हव्यादांश्च सुरारवक्रे कव्या-
 दांस्तु पितृनपि ॥२९॥ भागार्थे मन्त्रविधिना यश्चक्रे यज्ञकर्मणि ।

तट परके अमृतसमुद्रके शारवत योगका आश्रय ले बड़े भारी
 अन्धकारको फैला कर शयन करते हैं २४ देवताओंको (उत्पन्न
 करने वाली) अरणि अदितिने तपकी अधिकतासे जिन पुराण
 पुरुषरूपी गर्भको धारण किया था और जिन्होंने गर्भसे निक-
 लनेके बाद दैत्योंसे रोके हुए इन्द्रकी सब कामनाओंको पूर्ण
 कर दिया था २५ जिन्होंने अपने पैरोंको लोकमय करके अर्थात्
 एक चरणसे एक २ लोकको नाप कर दैत्योंको पातालमें भेज
 दिया था और देवताओंको स्वर्गमें देवता बनादिया था और
 सुरराज इन्द्रको देवताओंका अधिपतिपना देदिया था २६ जिन्होंने
 [यज्ञको] पात्र दक्षिणा दीक्षा चमस उलूखल, गार्हपत्यविधिसे
 और अन्वाहार्यकर्मसे आहवनीय अग्नि वेदी कुशा सुवा प्रोक्षणी
 ध्रुवा और आबभृथ्य [यज्ञान्तमें स्नानमें काम आने वाले तुप-
 सोम लिप्त आदि] और [ऊर्ध्व मध्य और अधोगति संज्ञा
 वाली] तीन सुभा बनाकर ब्राह्मणोंको हव्य कव्य मदान करने
 वाला बनादिया है और देवताओंको हव्य भक्षण करने वाले और
 पितरोंको कव्य भक्षण करने वाले बनाया है ॥ २७ ॥ २८ ॥

यूपान् समित्स्त्रुवं सोमं पवित्रान् परिधीनपि ॥ ३० ॥ यज्ञिगानि
 च द्रव्याणि यज्ञारच सत्रयानलान् । सदस्यान् यजमानांश्च
 मे-यादींश्च द्यूतूतमान् ॥ ३१ ॥ त्रिचभाज पुरा सर्व पारमेष्ठ्येन
 कर्मणा । यागानुरूपान् यः कृत्वा लोकाननुपराकृमात् ॥ ३२ ॥
 क्षणा लवाश्च काष्ठाश्च कालास्त्रैकाल्यमेव च । मुहूर्तास्तिययो
 मासाः पक्षाः संवत्सरास्तथा ॥ ३३ ॥ ऋतवः कालयोगाश्च
 प्रमाणं त्रिविधं त्रिषु । आयुः क्षेत्राण्युपचयो लक्षणं रूपसौष्ठवम् ३४
 त्रयो वर्णास्त्रयो लोकास्त्रैविधं पात्रकास्त्रयः । त्रैकाल्यं त्रीणि
 कर्माणि त्रयोऽपायास्त्रयो गुणाः ॥ ३५ ॥ त्रयो लोकाः पुराः सृष्टा
 जिन्होंने [देवताओंका] भाग निकालनेके लिये मन्त्र [ब्राह्मण
 ग्रंथों] की विधिसे यज्ञकर्ममें यूप समिधा सूना सोम पवित्र
 परिधियें यज्ञोपयोगी द्रव्य यज्ञ और ईंटके बने अग्निके स्थान
 सदस्य' यजमान यज्ञोंमें उत्तम यज्ञ मेध्य पदार्थ आदिका ब्रह्मा
 जीकी प्रवृत्त कीहुई विधिसे विभाग किया है और जिन्होंने
 लोकोंको यज्ञके अनुरूप बनानेका प्रयास किया है ॥ ३२-३३ ॥
 जिन्होंने क्षण लव काष्ठा कला [प्रातः मध्यान्ह और सायंकाल
 रूप] तीन काल मुहूर्त तिथि मास पक्ष वर्ष ऋतु काल योग
 और नित्य नैमित्तिक काम्य इन] तीन [प्रमेय] कर्मोंमें श्रुति
 स्मृति शिष्टाचाररूप तीन प्रकारकी प्रमाण आयु और [स्थूल
 सूक्ष्म कारणरूपा तीन] क्षेत्र [शरीर] वृद्धि [दो पैर चार
 पैर आदि] लक्षण और रूपकी सुन्दरता [रची है] ३३-३४
 और जिन्होंने तीन वर्ण (शुद्रको यज्ञ करनेका अधिकार नहीं
 है अतः उसका ग्रहण नहीं किया है) (भू आदि) तीन लोक
 (ऋक् यजु और सामवेदरूप) तीन विद्याएँ [गार्हपत्य आदि]
 तीन अग्निएँ [भूत भविष्यत् और वर्तमान कालरूप) तीन
 काल [सात्त्विक राजस और तामसरूप] तीन कर्म (पुत्रपणा

येनानन्त्येन कर्मणा । सर्वभूतगणसृष्टा सर्वभूतगुणात्मकः ॥ ३६ ॥
 नृणामिन्द्रियपूर्वेण योगेन रमते च यः । गतागताभ्यां यो नेता
 सर्वत्र जगदीश्वरः । ३७ ॥ यो गतिर्धर्मयुक्ताभगतिः पापकर्मणाम् ।
 चातुर्वर्ण्यस्य प्रभवश्चातुर्होत्रस्य रक्षिता ॥ ३८ ॥ चातुर्विद्यस्य यो
 वेत्ता चातुराश्रम्यसंश्रयः । दिगन्तरो नभोभूतो वायुरापविभा-
 वसुः ॥ ३९ ॥ चन्द्रसूर्यमर्या ज्योतिर्योगीशः क्षणदान्तकः । यत्परं
 वित्तपणा और लोकैणारूप) तीन अपाय और (सत्त्व रज
 तम] तीन गुण रचे हैं ॥ ३५ ॥ जिस अत्यन्त कर्म करने वाले
 ने पहिले तीनों लोकोंको रचा है जो सब भूतोंके रचयिता है और
 सर्वभूतगुणात्मक है ३६ जो गनुष्योंके मृत्यु और जन्मके (देनेके)
 कारण सर्वत्र नेता है और जो जगदीश्वर (जीवरूपसे) इन्द्रिय-
 पूर्व योगसे इन्द्रिय जन्यविषयसम्बन्धसे रमण करता है ॥ ३७ ॥
 जो धर्म करने वालोंकी गति है और पापकर्म-करने वालेकी
 अगति है अर्थात् पापकर्मी जिनको नहीं पासकते और जो चारों
 वर्णोंके उत्पत्तिस्थान हैं (यह बात 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्'
 आदि श्रुतिको लक्ष्य करके कही है) और जो (जिसमें चार
 ऋत्विज होय करते हैं ऐसे) चातुर्होत्रके रक्षक है ॥ ३८ ॥ जो
 (आन्वीक्षिकी त्रयी वर्णा और दण्डनीति रूप) चार विद्याओं
 के ज्ञाता है और जो चारों आश्रमके कर्मोंको आश्रय देने वाले
 है और जो जिसके दिशायें गभमें रहती हैं ऐसे आकाशरूप है
 और जो वायु आकाश जल और पृथ्वीरूप है ॥ ३९ ॥ जो
 चन्द्रसूर्यमय हैं अर्थात् चन्द्रसूर्यमयान मन हैं और जो (नेत्ररूप)
 ज्योति है और जो योगीश हैं अर्थात् निर्विकल्पक है वा मनके
 अन्तक है और जो (क्षणदा-रात्रि ही जिसका अन्तक है ऐसी
 चक्षुर्ज्योतिरूप) क्षणदान्तक है और जो पर (अन्तक शून्य)
 गिने जाते हैं और जो तपका आश्रय करते हैं अर्थात् जो

श्रयते ज्योतिर्यत्परं श्रयते तपः ॥४०॥ यं परं प्राहुरपरं यः परः
 परमात्मवान् । (नारायणपरा वेदा नारायणपराः क्रियाः । नारा-
 यणपरो धर्मो नारायणपरा गतिः ॥१॥ नारायणपरं सत्यं नारा-
 यणपरं तपः । नारायणपरो मोक्षो नारायणपरायणम् ॥ २ ॥)
 आदित्यादिस्तु यो दिव्यो यश्च दैत्यांतको विभुः ॥४१॥ युगा-
 न्तेष्वंतको यश्च यश्च लोकान्तरान्तकः । सेतुर्यो लोकसेतूनां
 मेधो यो मे-पकर्मणाम् ॥४२॥ वेद्यो यो वेदविदुषां प्रभुर्षु प्रभ-
 तपसे प्राप्त होते हैं (श्रुतिमें भी लिखा है, कि-“मनसैवेदमाप्तव्यम्”
 अर्थात् इस परमात्माको मनमें ध्यान तप) से प्राप्त किया जासकता
 है) ॥ ४० ॥ जिसको पर (सूत्रात्मा) और अपर (विराज)
 भी कहते हैं और जो परात्पर हैं अर्थात् पर सूत्रात्मासे भी पर
 है और जा आत्मवान् हैं अर्थात् आत्माकी समान ही मायारूपी
 शरीर वाले है (श्रुतिमें भी कहा, कि-“मायिनं तु महेश्वरम्-
 महेश्वरको मायावान् जाने” [वेद नारायणके आश्रयसे रहते
 हैं, सब क्रियाएँ नारायणके आश्रयसे होती हैं, धर्म भी नारा-
 यणके आश्रयसे रहना है और नारायणके पास पहुँचना ही परा
 गति है ॥ १ ॥ नारायण परम सत्यरूप है और तप नारायण
 पर है और नारायणके पास पहुँचना ही मोक्ष है और नारा-
 यण ही परायण हैं ॥ २ ॥] जो विभु आकाशमें फिरने वाले
 आदित्यरूप हैं और जो दैत्योंका नाश करने वाले हैं ॥ ४१ ॥
 जो प्रलयके समय यपराजका रूप धारण कर लेते हैं और जो
 लोकान्तर (यम) के भी अन्तरु हैं और जो लोककी मर्यादा
 बाँधने वाले (मनु आदि) के भी सेतु हैं अर्थात् मनु आदिको
 भी मर्यादामें रखनेवाले हैं और जो पवित्र रूपोंमें भी पवित्र हैं ४२
 और जो वेदके ज्ञाताओंके जानने योग्य हैं और जो प्रभुत्व
 के स्वभाव वाले (मरीचि आदि) के भी प्रभु हैं और जो

वात्मनाम् । सोमभूतस्तु सौम्यानामग्निभूतोऽग्निवर्चसाम् ॥ ४३ ॥
 मनुष्याणां मनोभूतस्तपोभूतस्तपस्विनाम् । चिनयो नयष्टतीनां
 तेजस्तेजस्विनामपि । सर्गाणां सर्गकारश्च लोकहेतुरनुत्तमः ४४
 विग्रहो विग्रहार्हाणां गतिर्गतिमतामपि । आकाशमभवो वायुर्वायु-
 माणो हुताशनः ॥ ४५ ॥ देवा हुताशनप्राणाः प्राणोऽग्नेर्मेधुमूदनः ।
 रसाद् शोणितं जातं शोणितान्मांसमुच्यते ॥ ४६ ॥ मांसान्च
 मेदसो जन्म मेदसोऽस्थीनि चैव हि । अस्थो मज्जा समभवन्म-
 ज्जातः शुक्रमेव च ॥ ४७ ॥ शुक्राद्गर्भः समभवद्रसमूलेन कर्मणा ।
 सौम्य पुरुषोमे चन्द्रपाकी समान भिद्य दर्शन देते हैं और जो
 अग्निकी समान तेजस्वी पुरुषोमे अग्निस्वरूप हैं ॥ ४३ ॥ और
 जो मनुष्योंके मनोरूप हैं और तपस्वियोंके तपोरूप हैं और
 नीतिवान् पुरुषोमे नम्रतारूपसे विराजमान रहते हैं और जो तेज-
 स्वीयोमे तेजःस्वरूप हैं और जो सृष्टियोंके रचने वाले हैं और
 संसारके सर्वश्रेष्ठ कारण हैं ॥ ४४ ॥ और जो शरीरवान् पुरुषो
 मे शरीररूप हैं और जो गति वालोंकी गति हैं और जो आकाश
 में उत्पन्न होनेवाले वायुरूप हैं तथा प्राण वायुरूप हैं और अग्नि-
 स्वरूप हैं ॥ ४५ ॥ अग्नि देवताओंका प्राण है और मधुमूदन-
 अग्निके प्राण हैं (वे अग्निके प्राण होकर उसके द्वारा क्या
 करते हैं इसका उत्तर देते हैं, कि-अग्निके द्वारा पृथक् किये हुए
 अन्नके साररूप) रससे शोणित-रक्त-हेता है (उससे क्रमशः
 रेत बनकर गर्भ रहता है इसप्रकार वह अग्निके द्वारा व्यापार
 करते हैं) और रक्तसे मांस होता है ॥ ४६ ॥ मांससे मेदकी
 उत्पत्ति होती है और मेदसे अस्थियोंकी उत्पत्ति होती है, हड्डियों
 से मज्जा उत्पन्न होती है और मज्जासे वीर्यकी उत्पत्ति होती
 है ॥ ४७ ॥ रसमूल कर्मके द्वारा शुक्रसे गर्भ होता है, उसमें जल
 का प्रथम भाग (वीर्य होता है, वह श्वेत होनेसे) सौम्य होता

तत्रापां मथमो भागः स सौम्यो राशिरुच्यते । गर्भोष्मसंभवो-
ऽग्निर्यो द्वितीयो राशिरुच्यते ॥४७॥ शुक्रं सोमात्मकं विद्यादार्तवं
विद्धि पावकम् । भागौ रसात्मकौ ह्येषां वीर्यं च शशिपावकौ ४६
कफवर्गं भवेच्छुक्रं पित्तवर्गं च शोणितम् । कफस्य हृदयं स्थानं
नाभ्यां पित्तं प्रतिष्ठितम् ॥ ५० ॥ देहस्य मध्ये हृदयं स्थानं
तन्मनसः स्मृतम् । नाभिकोष्ठांतरं तत्तु तत्र देवो हुताशनः ५१
मनःप्रजापतिर्ज्ञेयः कफः सोमो विभाव्यते । पित्तमग्निः स्मृतं
द्येतदग्नीपोमात्मकं जगत् ५२ ॥ एवं प्रवर्तिते गर्भे वद्वितेऽबुद-

हैं और गर्भकी गरमीसे उत्पन्न हुआ अर्थात् जठराग्निसे उत्पन्न
हुआ दूसरा भाग उममें रहता है ॥ ४८ ॥ शुक्रको सोमस्वरूप
समभूता चाहिये और आर्तवको पावकस्वरूप समभे (उक्तकृम
से) ये दोनों रसके ही भाग हैं, शशि और पावक अर्थात् शुक्र
और शोणित इन रस आदिके ही सार हैं ॥ ४९ ॥ (अब
जगत्के अग्नीपोमात्मकपनेको सिद्ध करते हैं कि-शुक्र(वीर्य)कफ
वर्गमें है और रक्त पित्तवर्गमें है, (वीर्यके आश्रयसे रहने वाले
और जिसका देवता सोम है ऐसे) कफका स्थान हृदय है
(वही प्रजापति देवता वाले मनका भी स्थान है) (रक्तके
आश्रयसे रहने वाले और जिसका देवता अग्नि है ऐसे) पित्त
का स्थान नाभि है (वही अग्नि देवता वाणीका स्थान है
स्थान स्थानीका अधिष्टेय और अधिष्ठाताका देह और देहीका
व्यवहारमें कुछ भेद नहीं होता है अतएव सम्पूर्ण नाम रूपात्मक
जगत् अग्नीपोमात्मक हैं) ५० देहके मध्यमें जो हृदय है वह मनका
स्थान कहलाता है और नाभिकोष्ठके भीतर (वाणीही अग्नि
ष्ठाती) देवता अग्नि रहती है ॥५१॥ मनको प्रजापति समभूता
चाहिये और कफको सोम समभूता चाहिये, पित्त अग्नि है,
इसप्रकार जगत् अग्नीपोमात्मक है ५२ जैसे धूम ज्योति सलिल

सन्निभे । वायुः प्रवेशं संचक्र संगतः परमात्मना ॥२३॥ ततो-
गानि विसृजात विभक्तिं परिवर्धयन् । स पञ्चधा शरीरस्थो
धिद्यते वर्धते पुनः ॥२४॥ प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान
एव च । प्राणः स प्रथमं स्थानं वर्धयन् परिवर्तते ॥२५॥ अपानः
पश्चिमं कायमुदानोर्ध्वं शरीरिणः । व्यानो न्यायच्छते येन समानः
सन्निवर्तयेत् । भूतावाप्तिस्ततस्तस्य जायतेन्द्रियमोचरात् ॥२६॥

और पवनसे मेघ बढ़ता है इसी प्रकार गर्भ भी अन्न अग्नि
जल और प्राणसे बढ़ता है अत एव अचेतन है, उसके बढ़नेपर
(प्राणवायुका सहचर होनेसे जीवरूप, वायु ईश्वरके साथ उसमें
प्रवेश करता है (और उसीके साथ उत्क्राण करता है) २३ (देहमें
प्रवेश करनेके अनन्तर जीव शिर आदि) अङ्गोंको रचता है
और उनको पुष्ट भी करता है, वह (प्राणोपाधि जीव प्राणके
पाँच प्रकारका होनेसे स्वयं भी) पाँच भागोंमें विभक्त होजाता
है (श्रुतिमें भी लिखा है, कि-स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति-)
(वह भेद इस प्रकार है) प्राण अपान समान उदान और व्यान,
इनमें प्राण प्रथम स्थान (हृदय) को बढ़ाता हुआ रहता
है ॥ २४ ॥ २५ अपान शरीरके (जंघासे लेकर चरणतकके)
पश्चिम शरीरको और उदान प्राणिके (जघनाओंसे ऊपरके)
ऊर्ध्व शरीरको बढ़ाता है और व्यान व्यापाम करता है अर्थात्
बलसाध्य कर्म करता है (अत एव वह शरीरकी सब सन्धियोंमें
वर्तमान रहता है) और समान संनिवर्तन करता है (वह नाभिमें
रहता है और खाने पीनेको एकसा करता है अर्थात् यथास्थान
पर पहुँचा देता है) इस प्रकार प्राणके कर्माका विभाग होनेके
अनन्तर जीवको [पृथिवी आदि] भूतोंका साक्षात्कार
होता है और वह साक्षात्कार इन्द्रियोंके द्वारा होता है
अर्थात् इन्द्रियोंका विषय रूप आदि है उसके द्वारा उनके आश्रय

पृथिवी वापुराकाशपापो ज्योतिश्च पञ्चमम् । तस्येन्द्रियाणि
 विष्टानि स्वं स्वं योगं प्रचक्रिरे ॥ ५७ ॥ पार्थिवं देहमाहुस्तं
 प्राणात्मानं च मारुतम् । छिद्राण्याकाशयोनीनि जलात् स्रावः
 प्रवर्तते ॥५८॥ ज्योतिश्चक्षुरश्च तेजात्मा तेषां यन्ता मनः स्मृतः ।
 ग्रामाश्च विषयाश्चैव यस्य वीर्यात् प्रवर्तिताः ॥ ५९ ॥ इत्येवं
 पुरुषः सर्वान् सृञ्जल्लोकान् सनातनान् । कथं लोके नैधनेऽस्मि-
 न्नरत्वं विष्णुरागतः ॥६०॥ एष मे संशयो ब्रह्मन्नेष मे विस्मयो

द्रव्यका ग्रहण होता है ॥ ५६ ॥ (इसका कारण कहते हैं कि-) पृथिवी आदि इन्द्रिय रूपसे परिणामको प्राप्त होकर शरीरमें अपने २ नेत्रगोलक आदि स्थानोंमें प्रविष्ट होजाते हैं अतः वह अपने २ योगको करते हैं अर्थात् पार्थिव घ्राण गन्धविशिष्ट पृथिवी का ग्रहण करती है, जलीय रसना जलके गुण रसोंको ग्रहण करती है, तेजस चक्षु तेजके गुण रूपको ग्रहण करती है, वायवीय स्पर्शेन्द्रिय उसके गुण स्पर्शको ग्रहण करती है और आकाशीय श्रोत्र उसके गुण शब्दको ग्रहण करता है देहको अर्थात् इकट्ठे हुए कठिनांशको पार्थिव कहते हैं और प्राणको वायु कहते हैं, छिद्र आकाश माने जाते हैं और जलसे सब (गीला पदार्थ निकलता है ॥ ५८ ॥ ज्योतिः चक्षुको उत्पन्न करती है, इन सब पृथिवी आदिका तेजात्मा मन अर्थात् तेजका अंश मन नियामक है (रूप आदिके आश्रय पृथिवी आदि । ग्राम और गन्ध आदि विषय इसके वीर्यसे प्रवृत्त होते हैं अथवा नगर ग्राम आदि इसके लगने पर ही बनाये जाते हैं श्रुतिमें लिखा है कि 'तद्वा इत्ं मनस्येव परमं प्रतिष्ठितम्, यह सब मनमेंही प्रतिष्ठित है ५९ भगवान् विष्णु इस प्रकार इन सनातन लोकोंको रचने रहते हैं, परम विष्णु इस मरणशील संसारमें मनुष्य क्यों बने थे ॥६० ॥ हे ब्रह्मन् ! मुझमें यही सन्देह और बड़ा भारी विस्मय हो रहा

महान् । कथं गतिर्गतिमतामापन्नो मानुषीं तनुम् ॥ ६१ ॥ श्रुतो
 मे स्वस्य वंशस्य पूर्वेषां चैव संभवः । श्रोतुमिच्छामि विष्णोस्तु
 वृष्णीनां च यथाक्रमम् ॥ ६२ ॥ आश्चर्यं परमं विष्णुर्देवैर्देवैश्च
 कथ्यते । विष्णोरुत्पत्तिमाश्चर्यं गगाचक्ष्व महामुने ॥ ६३ ॥ एत-
 दाश्चर्यमाख्यानं कथयस्व सुखावहम् । प्रख्यातप्रलदीर्यस्य विष्णो-
 रमिततेजसः । कर्म चार्चयेभूतस्य विष्णोस्त्वरविहोच्यताम् ६४
 इति श्रीगहाभारते ग्विलेपु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि
 चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥

वैशम्पायन उवाच । प्रश्नभारो महास्तात त्वयोक्तः शार्ङ्ग-
 धन्वनि । यथाशक्त्या तु वक्ष्यामि श्रूयतां वैष्णवं यशः ॥ १ ॥
 विष्णोः प्रभावश्रवणे दिष्ट्या ते मतिरुत्थिता । हन्त विष्णोः-
 प्रवृत्तिं च शृणु दिव्यां मयेरिताम् ॥ २ ॥ महसूत्रं

है, कि-गति देने वालोंको भी गति देने वाले भगवान् मनुष्य कैसे
 बने थे ॥ ६१ ॥ मैंने अपने वंशकी और अपने पूर्वजोंकी
 उत्पत्ति सुनी अब मैं विष्णुकी और वृष्णिवंशियोंकी उत्पत्तिको
 क्रमानुसार सुनना चाहता हूँ ॥ ६२ ॥ देवता और दैत्य विष्णु
 को परम आश्चर्यमय बताते हैं अतः हे महामुने ! आप विष्णुकी
 आश्चर्यजनक उत्पत्तिको सुनाइये ॥ ६३ ॥ आप बल और वीर्यमें
 प्रसिद्ध अमिततेजस्वी विष्णुके इस सुख देने वाले आश्चर्यजनक
 आख्यानको सुनाइये और आश्चर्यस्वरूप विष्णुके कर्मोंका तत्त्व
 भी सुझे सुनाइये ॥ ६४ ॥ चालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-हे तात ! आपने शार्ङ्ग धनुषमें
 धारण करने वाले श्रीकृष्णके विषयका बड़ा भारी प्रश्न कर
 डाला [यद्यपि इस भारको उठाना कठिन है] तब भी मैं यथा
 शक्ति कहता हूँ, अब तुम विष्णुकी कीर्तिको सुनो ॥१॥ प्रारब्ध-
 वश ही तुम्हारी विष्णुका प्रभाव सुननेकी और प्रवृत्ति हुई है, अब

सहस्रास्यं सहस्रभुजमव्ययम् । सहस्रशिरसं देवं सहस्रकर-
मव्ययम् ॥ ३ ॥ सहस्रजिह्वं भास्वन्तं सहस्रमुकुटं प्रभुम् ।
सहस्रदं सहस्रादिं सहस्रभुजमव्ययम् ॥ ४ ॥ सवनं हवनं चैव
हव्यं होतारमेव च । पात्राणि च पवित्राणि वेदीं दीक्षां चरुं
स्रुवम् ॥५॥स्रुक्सोमं शूर्पमुसलं प्रोक्षणं दक्षिणाऽयनम् । अश्वर्यु
सामगं विप्रं सदस्यं सदनं सदः ॥ ६ ॥ यूपं समित् कुशं दवीं
चमसोलूखलानि च । प्राग्वंशं यज्ञभूमिं च होतारं चयनं च यत्
हस्वान्यतिपमाणानि चराणि स्थावराणि च । प्रायश्चित्तानि
चार्यं च स्थण्डिलानि कुशांस्तथा ॥ ८ ॥ मन्त्रं यज्ञवहं वह्नि
भागं भागवहं च यत् । अग्नेभुजं सोमभुजं घृतार्विपमुदायुधम् ॥

तुम मेरी कही हुई विष्णुकी दिव्य लीलाको सुनो ॥२॥ जिनको
ब्राह्मण]सहस्र [अनन्त] नेत्रों वाला अनन्तमुखों वाला अनन्त
भुजा वाला अविनाशी अनन्त जिह्वा वाला अनन्त शिरवाला
अनन्त हाथों वाला अपरिणापी देव [कहते हैं]। ३ । ४ । [इस
प्रकार दो श्लोकोंसे विष्णुके सूक्ष्म मूर्तिरहित रूपका वर्णन करके
स्थूल मूर्तिमान रूपका वर्णन करते हैं, कि-द्विज जिनको] काल
[सवन] कर्म [हवन] होम करने योग्य द्रव्य यज्ञमान [पहिले
कहे हुए पात्रोंके अतिरिक्त कपाल आदि] पात्र [कुशपूर्ण]
पवित्र [देश] वेदी संस्कार चरुस्थाली और स्रुवस्रुक्सोम शूर्प
मुसल प्रोक्षणीपात्र अन्वाहार्य आदि इतिके द्वारा भक्षण करना
अश्वर्यु उद्राना विप्र सदस्य पत्नीशाला सभा यूप समिधा
कुशा दवीं चमस उलूखल प्राग्वंश यज्ञभूमि होता (अतिव्रज)
चयन (ईंटों का कुण्ड) हस्व (एक दिन काममें आने वाले
शकट) (वैलकी स्तंभशालाके) वड़े २ भवन चर अचर प्रायः
चित्त (स्वर्गआदि) अर्थ (फल) खुली भूमि कुश मंत्र यज्ञको
धारण करने वाली अग्नि भाग-भागवह (गायत्री आदि छन्द,

आहुर्वेदविदो विषा यं यज्ञे शाश्वतं विभुम् । तस्य विष्णोः
सुरेशस्य श्रीवत्सांकरस्य श्रीमतः ॥ १० ॥ प्रादुर्भावसहस्राणि
अतीतानि न संशयः । भूयश्चैव भविष्यन्तीत्येवमाह मजापतिः ११
यत् पृच्छसि महाराज पुण्यां दिव्यां कर्मां शुभाम् । यदर्थं भग-
वान् विष्णुः सुरेशो रिभुसूदनः देवलोकं समुत्सृज्य वसुदेवकुले-
ऽभवत् ॥ १२ ॥ तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि शृणु सर्वमशेषतः । वासु-
देवस्य माहात्म्यं चरितं च महाद्युतेः ॥ १३ ॥ हितार्थं सुरमर्त्यानां
लोकानां पभवाय च । बहुशः सर्वाभूतात्मा प्रादुर्भवति कार्यतः १४
प्रादुर्भावांश्च वक्ष्यामि पुण्यान् दिव्यगुणैर्युतान् । छान्दसीभिरु-
दारामिः श्रुतिभिः सपलंकृतान् ॥ १५ ॥ शुचिः प्रयतन्वाग्भूत्वा

श्रुतिमें भी लिखा है कि—“छन्दांसि वै देवेभ्यो हव्यमूह्वा
श्रान्तानि-छन्द देवताओंके लिये हव्य होते २ धरु जाते है)
अग्नेभुन (प्रापणीय) उदायुध (उदनीय) सोमभोक्ता घृतकी
लपटको यज्ञमें वेदनेता शाश्वत विभु विष्णुस्वरूपही बताते है, उन
सुरपति श्रीवत्सके चिन्ह वाले भगवान् विष्णुके सैंकड़ों ही अव-
तार हुए होंगे इसमें कुछ सन्देह नहीं है, और फिर भी होंगे,
यह बात मजापतिने कही है ॥५-११॥ हे महाराज ! तुम जिस
दिव्य कथाको बूझते हो और देवताओंके ईश शत्रुनाशरु विष्णु
देवलोकको त्याग कर वसुदेवके कुलमें जिस लिये उत्पन्न हुए
थे वह सब बात और महाकांतिमान् वासुदेवके महात्म्य तथा
चरित्रको भी मैं तुमसे कहता हूँ ॥ १२-१३॥ सब भूतोंके आत्मा
भगवान् देवता और मनुष्योंका कन्याण करनेके लिये तथा
लोकोंमें ऐश्वर्य बढ़ानेके लिये उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ १४ ॥
मैं भगवान्के चड़ी २ श्रुतियोंमें वर्णन किये हुए दिव्यगुण वाले
पवित्र अवतारोंको कहता हूँ ॥ १५ ॥ हे जनमेजय ! तू इस
वेदोंकी समान परपवित्र श्रीकृष्णजीके प्राचीन अवतार संवंधी

निबोध जनमेजय । इदं पुराणं परमं पुण्यं वेदैश्च संमितम् १६
 इन्त ते कथयिष्यामि विष्णोर्दिव्यां कथां शृणु । यदा यदा हि
 धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । धर्मसंस्थापनार्थाय तदा संभवति
 प्रभुः ॥ १७ ॥ तस्य ब्रह्मा महाराज मूर्तिर्भवति सत्तमा । नित्यं
 दिविष्ठा या राजंस्तपश्चरति दुश्चरम् ॥ १८ ॥ द्वितीया चास्य
 शयने निद्रायोगमुपागम्यौ । प्रजासंहारसर्गार्थं क्रिमध्यात्मविचिंत-
 कम् ॥ १९ ॥ सुप्त्वा युगसहस्रं स प्रादुर्भवति कार्यतः । पूर्णं
 युगसहस्रं तु देवदेवो जगत्पतिः ॥ २० ॥ पितामहो लोकपाला-
 श्वन्द्रादित्यो हुताशनः । ब्रह्मा च कपिलश्चैव परमेष्ठी तथैव
 च ॥ २१ ॥ देवाः सप्तर्षयश्चैव त्र्यम्बकश्च महायशाः । वायुः
 वर्णनको पवित्र होकर और वाणीको नियममें रख कर सुन १६
 में तुमसे विष्णु ही दिव्य कथाको सुनाता हूँ उसको तुम सुनो !
 हे भरतवंशिन ! जब जब धर्ममें ग्लानि उत्पन्न होने लगती है,
 तब प्रभु धर्मको स्थापित करनेके लिये उत्पन्न होते हैं) यहाँ
 प्रवृत्ति प्रधान रजोमूर्तिका वर्णन किया है ॥ १७ ॥ हे महाराज !
 उनकी एक श्रेष्ठ मूर्ति स्वर्गमें स्थित रह कर सदा दुष्कर तप
 करती रहती है (यहाँ सात्त्विकी मूर्तिका वर्णन किया है) १८
 (अब तामसी मूर्तिका वर्णन करत हैं) इनकी दूसरी मूर्ति
 (सविकल्प समाधि वाले अ-यात्मचिन्तक प्रजाका संहार करने
 के लिये निद्रायोगका आश्रय लेकर शयन करती रहती हैं १९
 (उनके अंगमें लीन रहने वाले देवताओंका प्रादुर्भाव ही उनका
 प्रादुर्भाव माना जाता है, यही बात अथ श्लोकमें कहते हैं, कि)
 वह सहस्र युग तक सोनेके अगन्तर आने (देवता आदि)
 कार्यसे उत्पन्न होती है सहस्र युग पूर्ण होने पर देवदेव महादेव
 जगत्के पति (विष्णु) ब्रह्माजी लोकापाल चन्द्रमा सूर्य अग्नि
 ब्रह्मा कपिल परमेष्ठी तथा देवता सप्तर्षि महायशस्वी त्र्यम्बक

समुद्राः शैलारन तस्य देहं समाश्रिताः ॥ २२ ॥ सनत्कुमारश्च
 महानुभावो मनुर्महात्मा भगवान् प्रजाकरः । पुराणदेवोऽथ
 पुराणि चक्रे प्रदीप्तवैश्वानरतुल्यतेजाः ॥ २३ ॥ येन चार्णव-
 मध्येस्थो नष्टे स्थावरजंगमे । नष्टे देवासुरगणे प्रनष्टोरगरात्तसे २४
 योद्धुक्तापी सुदुर्धर्षो दानवो मधुकैटभौ । इतो मभवता तेन
 तंयोर्दत्त्वंऽमितं वरम् ॥ २५ ॥ पुग कमलनाभस्य स्वपतः साग-
 राभसि । पुष्करे यत्र संभूता देवाः सर्पिगणाः पुग ॥ २६ ॥
 एष पौष्करको नाम प्रादुर्भावो महात्मनः । पुराणे कथ्यते यत्र
 वेदः श्रुतिसमाहितः ॥ २७ ॥ वाराहस्तु श्रुतिमुखः प्रादुर्भावो
 महात्मनः । यत्र विष्णुः सुरश्रेष्ठो वाराहं रूपमास्थितः । महीं
 वायु समुद्र और पर्वत जो उनके देहका आश्रय करके वर्तमान
 रहते हैं (वे प्रकट होजाते हैं) ॥ २०—२२ ॥ पुराणदेव तथा
 (नारायण स्वरूप-) प्रज्वलित अग्निकी समान तेज वाले महा-
 नुभाव पुराणदेव सनत्कुमार और प्रजाको रचने वाले भगवान्
 मनु (उनके आश्रयसे रहते हैं, और इस समय प्रकट हो जाते
 हैं) इस प्रकार प्रदीप्त अग्निकी समान तेजवाले पुराणदेवने
 (ब्रह्माजीपे लेकर स्तम्भ पर्यन्ताके) शरीरोंको रचा और
 स्थावरजंगमके नष्ट होने पर तथा देवता और असुरोंके
 नष्ट होने पर तथा सर्प और रक्षसोंके भी नष्ट होने पर उन
 महात्मान्ने युद्ध करनेकी अभिलाषा वाले अतिदुर्धर्ष मधु और
 कैटभ नाम वाले दानवोंको मार डाला था और उनको अमित
 (कैवल्य मोक्ष) दिया था ॥ २५ ॥ पहिले जब कमलनाभ
 विष्णु समुद्रके जलमें शयन कर रहे थे उस समय (उनके नाभि
 के) कमलमेंसे ऋषि और देवता उत्पन्न हुए थे २६ पुराणमें वेद-
 शास्त्र विभूषित महात्माका यह प्रादुर्भाव पौष्करक नामसे प्रसिद्ध
 है ॥ २७ ॥ उन महात्माका वाराह नामक अवतार श्रुतिमुख है

सागरपर्यन्तां सशैलवनकाननाम् ॥ २८ ॥ वेदपादो यूपदंष्ट्रः
 क्रतुदन्तश्चितामुखः । अग्निजिह्वो दर्भरोमा ब्रह्मशीर्षो महा-
 तपाः ॥२९॥ अहोरात्रे ज्ञाणो दिव्यो वेदान्तश्रुतिभूषणः । आज्य-
 नासः स्रुवातुण्डः सामघोपस्वनो महान् ॥ ३० ॥ धर्मसत्यमयः
 श्रीमान् क्रमविक्रमसत्कृतः । प्रायश्चित्तनखो धीरः पशुजानुर्महा-
 भुजः ॥३१॥ उद्गात्रन्तो होमलिंगः फलबीजमहीपथिः । वायवंत-
 रात्मा मन्त्रस्फिग्विकृतः सोमशोणितः ॥३२॥ वेदीस्कन्धो हवि-
 र्गन्धो हव्यकव्यातिवेगवान् । प्राग्वंशकायो घृतिमान्नानादीन्ना-

उस श्रुतिमें सुरश्रेष्ठ त्रिष्णुने वाराह रूपको धारण कर पर्वत और
 वन सहित समुद्र पर्यन्तकी सारी पृथ्वीका उद्धार किया है) वह
 श्रुति इस प्रकार है 'यस्य रूपं विश्वदिमामविन्दद् गुहां प्रविष्टः
 शरीरस्य मध्ये') ॥ २८ ॥ वह वराह वेद रूपी चरणों वाला
 है, यूपरूपी दंष्ट्रा वाला है, यज्ञरूपी दाँत वाला है, चिता (वेद)
 रूपी मुख वाला है, अग्निरूपी जिह्वा वाला है, कुशारूपी रोम
 वाला है, ब्रह्मरूपी शिर वाला है और वह महातपस्वी दिन रात
 रूपी नेत्रों वाला है और वह दिव्य वराह वेदान्तकी श्रुतियोंसे
 भूषित है, वह घृतरूपी नासिका वाला-है, स्रुवारूपी तुण्ड वाला
 है और सामगानरूपी बड़ा भारी शब्द करने वाला है वह धर्म-
 सत्यमय है और वह श्रीमान् क्रम (पादक्रम) और विक्रमोंसे
 सत्कृत है और प्रायश्चित्तरूपी नख वाला है और वह पशुरूप
 जानु वाला है और महाभुज है, तथा यह उद्गात्र रूपी मन्त्र
 वाला है, होमरूपी लिंग वाला है तथा फल (वृषण) और
 बीज (वीर्य) रूपी महीपथि वाला है, अर्थात् औपथियें द्वी
 इसका वीर्य है और वायु ही इसकी अन्तरात्मा है और मन्त्र,
 इसकी त्वचा है और निचोड़ा हुआ सोम इसका रक्त है, वेदी
 इसकी स्कन्ध है और हवि इसकी गन्ध है और यह हव्यकव्यरूपी

विराचितः ॥ ३३ ॥ दक्षिणाहृदयो योगी महासन्नमयो महान् ।
 उपकर्माष्टरुचकः प्रवर्ग्यावर्तभूषणः ॥ ३४ ॥ नानाछन्दो गति-
 पथो गुह्योपनिषदासनः । व्यायापत्नीसहायो वै मेरुशृङ्ग इवो-
 च्छ्रितः ॥ ३५ ॥ महीं सागरपर्वन्तां सशैलवनकाननाम् । एका-
 र्णवजले भ्रष्टामेकार्णवगतां प्रभुः ॥ ३६ ॥ दंष्ट्रया यः समुद्र-
 धृत्य लोकानां हितकाम्यया । सहस्रशीर्षो देवादिश्चकार पृथिवीं
 पुनः ॥ ३७ ॥ एवं यज्ञवराहेण भूत्वा भूतहितार्थिना । उद्घृता
 पृथिवी सर्वा सागरांबुधरा पुरा ॥ ३८ ॥ वाराह एव कथितो
 नासिंहमतः शृणु । यत्र भूत्वां मृगेन्द्रेण हिरण्यकशिपुर्वृतः ३९

अतिवेग वाला है, प्राग्भंशरूपी शरीर वाला है और वह कान्ति-
 गान अनेक दीक्षाओंसे आचित है, दक्षिणारूपी हृदय वाला है
 और वह योगी बड़े भारी सदावर्त वाला है और स्वाध्यायको
 स्वीकार करना ही उसके ओष्ठका भूषण है और धर्मरत्नाके
 लिये वार २पराक्रम करना ही उसका भूषण है, अनेक प्रकारके
 छन्द ही उसके गतिमार्ग हैं और वह गुप्त उपनिषदरूपी आसनों
 पर विराजमान रहता है और सूर्य उसकी सहायता करता है
 और वह मेरुपर्वतके शिखरकी समान खड़ा हुआ है (आदि-
 वाराहकी उपासना करने वालोंको इस प्रकार वाराहके अंगोंमें
 यज्ञके अंग समझने चाहिये) ॥ २६-३५ ॥ ऐसे सहस्र सिर
 वाले देवताओंमें मुख्य सहस्र शिर वाले वराहने समुद्रमें डूबी
 हुई और समुद्ररूप बनी हुई पर्वत और वन सहित पृथ्वीको
 लोकोंका हित करनेके लिये अपनी डाढ़से उद्धार कर उसको
 फिर स्थापित किया था ॥ ३६-३७ ॥ इस प्रकार संसारका
 हित चाहने वाले यज्ञ त्वा वराहने सागरके जलमें डूबी हुई
 पृथिवीका उद्धार किया था ॥ ३८ ॥ यह वराह अवतारकी कथा
 कहदी अब तुम नृसिंहावतारकी कथाको सुनों, उस अवतारको

पुरा कृतयुगे राजन् सुरारिवन्दर्षितः । दैत्यानामादिपुरुषत्रचार
 तप उत्तमम् ॥ ४० ॥ दशवर्षसहस्राणि शानि दश पंच च ।
 जलोपवासनिरतः स्थानमौनदृढव्रतः ॥ ४१ ॥ ततः शमदमाभ्यां
 च ब्रह्मचर्येण चानय । ब्रह्मा प्रीनोऽभवत्तस्य तपसा । निय-
 मेन च ॥ ४२ ॥ तं वै स्वयम्भूर्भगवान् स्वयमागत्य भूपते ।
 विमानेनार्कवर्णेन हंसयुक्तेन भाभवता ॥ ४३ ॥ आदित्यैर्वसुभिः
 साध्यैमरुद्भिर्देवतैः सह । रुद्रैर्विश्वसहायैश्च यत्तराजसकिन्नरैः
 दिशाभिर्विदिशाभिरच नदीभिः सागरैस्तथा । नक्षत्रैश्च सुहूर्तैश्च
 खेचरैश्च महाग्रहैः ॥ ४५ ॥ देवर्षिभिस्तपोवृद्धैः सिद्धैः सप्तर्षि-
 भिस्तथा । राजर्षिभिः पुण्यतमैर्गन्धर्वैश्चाप्सरोगणैः ॥ ४६ ॥
 चराचरगुरुः श्रीमान् व्रतः सर्वैः सुरैस्तथा । ब्रह्मा ब्रह्मविदां

धारण करके सिद्धने हिरण्यकाशिपुको मार डाला था ॥ ३६ ॥
 हे राजन् ! पहिले सत्य युगमें बलके कारण घण्टडमें भरे रहने
 वाले देवताओंके शत्रु और दैत्योंके आदिपुरुषने केवल जलका
 आहार कर आसन और मौनका दृढ व्रत धारण कर साढ़े
 ग्यारह सहस्र वर्ष तक उत्तम तप किया था ॥ ४१ ॥
 हे निष्ठाप ! तदनन्तर उसके शम दम तप ब्रह्मचर्य और
 नियमको देखकर ब्रह्माजी प्रसन्न होगए ॥ ४२ ॥ तद-
 नन्तर हे भूपते ! स्वयंभू भगवान् अपने हंसोंसे जुते हुए
 दमकने हुए विमानमें बैठ कर तहाँ स्वयं आये ॥ ४३ ॥ उनके
 साथमें आदित्य वसुं साध्य मरुत् देवता रुद्र और विश्वकी सहा-
 यना करने वाले यत्तराजस और किन्नर तथा दिशा विदिशा
 नदी समुद्र नक्षत्र सुहूर्त आकाशचारी महाग्रह तपोवृद्ध देवर्षि
 सिद्ध सप्तर्षि राजर्षि पुण्यवान् गन्धर्व और अप्सरायें (भी आई
 थीं) । ४४-४६ ॥ चराचरके गुरु ब्रह्माजी(इनसे तथा) सब
 देवताओंसे घिरे हुए थे फिर उन ब्रह्मवेदाओंमें श्रेष्ठ

श्रेष्ठो दैत्यं वचनमब्रवीत् ॥४७॥ प्रीतोऽस्मि तव भक्तस्य तपमा-
 ज्ञेन सुव्रत । वरं वरथ भद्रन्ते यथेष्टं काममाप्नुहि ॥ ४८ ॥
 हिरण्यकशिपुरुवाच । न देवासुरमन्धर्वा न यत्नोरग्राज्ञसाः ।
 न मानुषाः पिशाचाथ निहन्पुर्मां कथंचन ॥ ४९ ॥ ऋषयो वा
 न मां शपैः क्रुद्धा लोकापितामह । शपेयुस्तपसा युक्ता वरमेतं
 वृणोम्यहम् ॥ ५० ॥ न शस्त्रेण न चास्त्रेण गिरिणा पादपेन वा
 न शुष्केण न चार्द्रेण स्यान्न चान्येन मे वधः ॥ ५१ ॥ पाणि-
 महारेणैकेन सभृत्यवलवाहनम् । यो मां नाशयितुं शक्तः स मे-
 मृत्युर्भविष्यति ॥ ५२ ॥ भवेयमहमेवार्कः सोमो वायुर्हुताशनः ।
 सलिलं चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि दिशो दश ॥ ५३ ॥ अहं क्रोधश्च
 कामश्च वरुणो वासवो यमः । धनदश्च धनाध्यक्षो यत्नः किं-
 पुरुषाधिपः ॥ ५४ ॥ एवमुक्तस्तु दैत्येन स्वयम्भूर्भगवांस्तदा ।

ब्रह्माजीने उस दैत्यसे यह बात कही ॥ ४७ ॥ हे सुव्रत !
 मैं तुम्हें भक्तके तपसे प्रसन्न होगया हूँ हे सुव्रत ! तू वरको
 माँग और अपनी अभिलषित इच्छाको पूर्ण कर ॥ ४८ ॥
 हिरण्यकशिपुने कहा, कि देवता असुर मन्धर्व यत्न सर्प राक्षस
 तथा मनुष्य और पिशाच भी मुझको कभी न मार सकें ॥ ४९ ॥
 और हे पितामह ! क्रोधमें भरे हुए तपस्वी ऋषि भी मुझे शाप
 न दे सकें, यह वर मैं माँगता हूँ ॥ ५० ॥ मेरा वध शस्त्र पत्थर
 वृक्षसे तथा गीली और सूखी वस्तुसे भी न होमके ॥ ५१ ॥
 और जो मुझे और मेरी सेना भृत्य और वाहनोंको भी केवल
 हाथके ही महारसे मार सके उससे ही मेरी मृत्यु हो ॥ ५२ ॥
 मैं ही सूर्य चन्द्रमा वायु अग्नि जल आकाश गन्तव्य और दश
 दिशाये रहूँ ॥ ५३ ॥ और मैं काम क्रोध वरुण इन्द्र यम धन
 देने वाला कुबेर और किंपुरुषोंका स्वामी यत्न रहूँ ॥ ५४ ॥
 उस दैत्यराजके इस प्रकार कहने पर हे नृपसत्तम ! स्वयम्भू ब्रह्माजा

उवाच दैत्यराजं तं प्रहसन्तृप्तसत्तम ॥ ५५ ॥ ब्रह्मोवाच । एते
 दिव्या वरास्तात मया दत्तास्तवाद्भुताः । सर्वान् कामानिमांस्तात
 प्राप्स्यसि त्वं न संशयः ॥ ५६ ॥ एवमुक्त्वा तु भगवाञ्जगामा-
 काशमेव हि । वैराजं ब्रह्मसदनं ब्रह्मर्षिगणसेवितम् ॥ ५७ ॥
 ततो देवाश्च नागाश्च गन्धर्वा मुनयस्तथा । वरप्रदानं श्रुत्वा ते
 पितामहमुपस्थिताः ॥ ५८ ॥ विभुं विज्ञापयामासुर्देवा इन्द्रपुरो-
 गमाः ॥ ५९ ॥ देवा ऊचुः । वरेणानेन भगवन् वधिष्यति स-
 नोऽसुरः । ततः प्रसीद भगवन् वरोप्यस्य विचिंत्यताम् ॥ ६० ॥
 भगवान् सर्वभूतानां स्वयंभूरादिकृद्भिः । सृष्टा च हव्यकन्या-
 नामव्यक्तः प्रकृतिर्ध्रुवः ॥ ६१ ॥ सर्वलोकहितं वाक्यं श्रुत्वा देवः
 प्रजापतिः । प्रोवाच भगवान् वाक्यं सर्वान् देवगणांस्तदा ६२
 अवरयं त्रिदशास्तेन प्राप्तव्यं तपसः फलम् । तपसोऽस्य भग-

उस दैत्यराजसे हँस कर बोले ॥ ५५ ॥ ब्रह्माजीने कहा, कि-
 हे तात ! मैं तुझको ये सब दिव्य और अद्भुत वर देता हूँ,
 निःसन्देह तेरी सब कामनाएँ सकल होंगी ॥ ५६ ॥ भगवान्
 ब्रह्माजी इस प्रकार कह कर देवर्षियोंसे सेविः अपने वैराज नाम
 वाले लोकमें जानेके लिये आकाशमेंको चले गए ॥ ५७ ॥ ब्रह्माजी
 के वरदान देनेकी बात सुन कर देवता नाग गन्धर्व और मुनि
 पितामहके पास पहुँचे ॥ ५८ ॥ और तहाँ पहुँच इन्द्रप्रमुख देव-
 ताओंने प्रभु ब्रह्माजीसे निवेदन किया ॥ ५९ ॥ देवताओंने कहा
 कि-हे भगवन् ! वह असुर इस वरदानसे हमें पीड़ा देने लगेगा
 अतः हे भगवन् ! आप हम पर प्रसन्न होकर उसके वधका भी
 कोई उपाय विचारिये ॥ ६० ॥ सब भूतोंके भगवान् आदिकर्ता
 विभु हव्य तथा कन्यके प्रवर्तक अव्यक्त प्रकृति और ध्रुव प्रजा-
 पति ब्रह्मदेव सब लोकोंका हित करने वाले वचनको सुन
 कर सब देवताओंसे कहने लगे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ हे देवताओं!

वान् वधं विष्णुः करिष्यति ॥ ६३ ॥ एतच्छ्रुत्वा सुराः सर्वे
 वाक्यं पंकजसंभवात् । स्वानि स्थानानि दिव्यानि जग्मुस्ते वै
 मुदान्विताः ॥ ६४ ॥ लब्धमात्रे वरे चापि सर्वाः सोऽवाभत प्रजाः ।
 हिरण्यकशिपुर्दैत्यो वरदानेन दर्पितः ॥ ६५ ॥ आश्रमेषु महा-
 भागान् मुनीन् वै शंसितव्रतान् । सत्यधर्मरतान् दान्तान् पुरा
 धर्षितवांस्तु सः ॥ ६६ ॥ देवांस्त्रिभुवनस्थास्तु पराजित्य महा-
 सुरः । त्रैलोक्यं वशमानीय स्वर्गे वसति दानवः ॥ ६७ ॥ यदा
 वरमदोन्मत्तोऽन्पवसदानवो भुवि । यज्ञियान् कृतवान् दैत्यान्
 देवांश्चैवाप्ययज्ञियान् ॥ ६८ ॥ आदित्यश्च ततो रुद्रा विश्वे
 च मरुतस्तथा । शरण्यं शरणं विष्णुमुपाजग्मुर्महाबलम् ॥ ६९ ॥
 वेदयज्ञमयं ब्रह्म ब्रह्मदेवं सनातनम् । भूतं भव्यं भविष्यं च प्रभुं

इसे तपका फल तो अवश्य ही मिलेगा, इसके तपका अन्त
 होने पर भगवान् विष्णु इसको वध करेंगे ॥ ६३ ॥
 सब देवता ब्रह्माजीकी इस बातको सुन कर घसन्न होते हुए
 अपने २ भवनोंको चले गये ॥ ६४ ॥ उधर वरदानसे दर्पमें
 भरा हुआ हिरण्यकशिपु भी वरके पाते ही सब प्रजाओंको
 उत्पीडित करने लगा ॥ ६५ ॥ उसने पहिले सत्यधर्म परायण
 प्रशंसित व्रत वाले महाभाग मुनियोंको आश्रममें पहुँच कर पीड़ा
 देना आरम्भ कर दिया ॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त वह महा असुर
 तीनों लोकोंके देवताओंका पराजय कर त्रिलोकीको अपने वशमें
 करके स्वर्गमें रहने लगा ॥ ६७ ॥ जब दैत्य वरके मदसे मच
 होगया तब उसने दैत्योंको पृथ्वी भाग दिलवाना आरम्भ कर
 दिया और देवताओंकी यज्ञमें भाग देना बन्द करवा दिया ६८
 तब आदित्य रुद्र विश्वेदेवा तथा मरुद्गण महाबली विष्णुकी शरण
 में गए ६९ और उन्होंने वेदयज्ञमय ब्रह्मस्वरूप ब्राह्मणोंके देवता
 सनातनपुरुष भूत भव्य और भविष्यत् रूप लोकनमस्कृत शरण

लोकनमस्कृतम् । नारायण विभुं देवाः शरणं शरणागताः ७०
 देवा उचुः । त्रायस्व नोऽय देवेश हिरण्यरुशिपोर्भयात् । त्वं हि
 नः परमो धाता ब्रह्मादीनां सुगोचमः ७१ त्वं हि नः परमो देवस्त्वं
 हि नः परमो गुरुः । उत्फुल्लान्चुत्तपत्रान्तः शत्रुपन्नभयंकरः । क्षयाप
 दितिवंशस्य शरणं त्वं भवस्व नः ॥ ७२ ॥ विष्णुरुवाच । भयं त्यज-
 ध्वगमरा ह्यभयं वो ददाम्यहम् । तत्रैव त्रिदिवं देवाः प्रतिपत्स्यथ
 मा चिरम् ॥ ७३ ॥ एष तं सगणं दैत्यं वरदानेन दर्पितम् । अ-
 व्यममरेंद्राणां दानवं तं निहन्म्यहम् ॥ ७४ ॥ वैशम्पायन उवाच ।
 एवमुक्त्वा स भगवान्विसृज्य त्रिदशेश्वरान् । हिरण्यरुशिपो
 राजन्नाजगाम हरिः सभाम् ॥ ७५ ॥ नरस्य कृत्वाऽर्धतनुं सिंह-
 स्यार्धतनुं प्रभुः । नारसिंहेण वपुषा पाणिं संस्पृश्य पाणिना ७६

देनेवाले विभु नारायणकी शरण ली ॥ ७० ॥ देवताओंने कहा
 कि-हे देवेश ! आप हमारी हिरण्यरुशिपुके भयसे रक्षा करिये,
 हे सुगोचम ! आप ही हम ब्रह्मा आदिके परमधाता है ॥ ७१ ॥
 आप ही हमारे परम देव हैं और आप ही हमारे परम गुरु हैं,
 आप ही गिलेहुए कमलपत्रकी समान नेत्र वाले हैं और आप
 हमारे शत्रुपन्नका क्षय करने वाले हैं हे प्रभो ! आप दितिके वंश
 का क्षय करनेके लिये हमें शरण दीजिये ॥ ७२ ॥ विष्णुने कहा,
 कि-हे देवताओं ! तुम अब डरना छोड़ दो मैं तुम्हें अभयदान
 देता हूँ, हे देवताओं ! तुम शीघ्र ही अपने स्वर्गमें पहुँच जाओगे
 अब मैं देवताओंसे अवध्य वरदानसे घमण्डमें भरे हुए उस दैत्य
 को और उसके गणोंको अभी मारे डालता हूँ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ वैशम्पा-
 यनजीने कहा, कि-वह भगवान् हरि इस प्रकार कह देवताओंको
 तहाँ छोड़ कर हिरण्यरुशिपुकी सभामें आगुँचे ॥ ७५ ॥ तहाँ
 वह भगवान् प्राथा मनुष्यका और आ ग सिंहका शरीर बना
 कर अपने नरसिंह शरीरमें हाथसे हाथको मसलने लगे ॥ ७६ ॥

जीमूतघनसंकाशो जीमूतघननिस्वनः । जीमूतघनदीप्तीजा जीमूत
 इव वेगवान् ॥ ७७ ॥ दैत्यं सोऽतिबलं दीप्तं दृप्तशार्दूलविक्र-
 मम् । दोषैर्दैत्यगणैर्गुप्तं इतवानेकपाणिनाऽऽनृसिंह एषः कथितो
 भूगोऽयं वामनोऽपरः । यत्र वामनपाथि य रूप दैत्यविनाश
 कृत् ॥ ७९ ॥ बलेर्नचरतो यत्रे बलिना विष्णु म पुत्र । विक्रमै-
 द्विभिरत्तोभ्यः क्षोभितास्तं महासुराः ८० विप्रचित्तिः शिविः शंकु-
 रयःशंकुरस्तथैव च । अयःशिराः शंकुशिरा हयग्रीवश्च वीर्य-
 वान् ॥ ८१ ॥ वेगवान् केतुपानुग्रः सोमव्यग्रो महासुरः । पुष्करः
 पुष्कलश्चैव वेपनश्च महारथः ॥ ८२ ॥ बृहत्कीर्तिर्महाजिह्वः
 सारथोऽश्वपतिरेव च । प्रहादोऽश्वशिरा कुम्भः संह्रादो गगन-
 मियः । अनुह्रादो हरिहरौ वराहः शंकरो रुद्रः ॥ ८३ ॥ शरभः

उन मेघकी समान (बर्ण वाले) और मेघको समान गर्जना
 करने वाले और मेघकी समान दीप्त ओज वाले और मेघकी
 समान वेगवान् भगवान्ने उस बलके कारण घमण्डमें भरे हुए
 और दीप्तिमान् दैत्योंसे घिरे हुए शार्दूलकी समान पराक्रम
 कृत्ने वाले दैत्योंके एक हाथसे मार डाला ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ यह
 तुम्हसे वृसिंहवतारका वर्णन कर दिया फिर दूसरा वामन अव-
 तार हुआ है, उसमें उन्होंने दैत्योंका नाश करने वाला वामनरूप
 धारण किया है ॥ ७९ ॥ पहिले बलवान् बलिके यज्ञमें भगवान्
 विष्णुने तीन पैर धर कर किसीसे चुम्ब न होने वाले असुरोंको
 चुम्ब कर दिया था । ८० ॥ निप्रसृप हृषीकेश पैर धर रहे
 थे उस समय निप्रचित्ति शिवि शंकु अयःशंकु अयःशिरा शंकु
 शिरा वीर्यवान् हयग्रीव वेगवान् केतुपान् उग्र महासुर सोमव्यग्र
 पुष्कर पुष्कल महारथी-वेपन बृहत्कीर्ति महाजिह्व सारथ अश्व-
 पति प्रहाद अश्वशिरा कुम्भ संह्राद गगनमिय अनुह्राद हरि हर
 वराह शंकर रुद्र शरभ शलर कुान कोपन क्रथ बृहत्कीर्ति-मह

शलभश्चैव कुपनः क्रोपनः क्रथः । वृद्धकीर्तिर्महाजिह्वः शंकु-
 कर्णो महास्वनः ॥ ८४ ॥ दीर्घजिह्वोऽर्कनयनो मृदुचापो मृदु-
 भियः । वायुर्यविष्ठो नमुचिः शम्बरो विज्वरो महान् ॥ ८५ ॥
 चन्द्रहन्ता क्रोधहन्ता क्रोधवर्धन एव च । कालकः कालकेयश्च
 वृत्रः क्रोधो विरोचनः ८६ गरिष्ठश्च वरिष्ठश्च प्रलम्बनरकावुभौ ।
 इन्द्रतापनवातापी केतुमान् बलदर्पिताः ॥ ८७ ॥ असिलोमा पुलोमा
 च वाक्कलः प्रमदो मदः । स्वसृमः कालवदनः करालः कौशिकः
 शरः ॥ ८८ ॥ एकाक्षश्चन्द्रहा राहुः संह्रादः सृमरः स्वनः ।
 शतघ्नी चक्रहस्ताश्च तथा परिघपाणयः ॥ ८९ ॥ महाशिला-
 प्रहरणाः शुचहस्ताश्च दानवाः । अश्रमयन्त्रायुधोपेता भिण्डि-
 पालायुधास्तथा ॥ ९० ॥ शूलोन्मूलहस्ताश्च परश्वधधरा-
 स्तथा । पाशमुद्गरहस्ता वै तथा मुशलपाणयः ॥ ९१ ॥ नाना-

जिह्व शंकुर्कर्ण महास्वन दीर्घजिह्व अर्कनयन मृदुचाप मृदुभिय
 वायु यविष्ठ नमुचि शम्बर विज्वर महान् चन्द्रहन्ता क्रोधहन्ता
 क्रोधवर्धन कालक कालकेय वृत्र क्रोध विरोचन गरिष्ठ वरिष्ठ प्रलंब
 और नरक ये दोनों इन्द्रतापन—वातापि बलदर्पित—केतुमान्
 असिलोमा पुलोमा वाक्कल प्रमद मद स्वसृम कालवदन कराल
 कौशिक शर एकाक्ष चन्द्रहा राहु संह्राद सृमर स्वन नाम वाले
 और हाथमें चन्द्रक तथा चक्रको पकड़ने वाले और हाथमें परिघ
 उठाने वाले, बड़ी शिलाके आयुध वाले और हाथमें पाश
 मुद्गर ग्रहण करने वाले और हाथमें शूल धारण करने
 वाले दानव तथा गोफन वाले और भिण्डपालके आयुध वाले
 तथा हाथमें शूल और मृगल लिये हुए और फरसे लिये हुए
 तथा अनेक प्रकारके भयंकर आयुधोंको धारण करने वाले, अनेक
 वेप वाले महावेगवान् कूर्म और मुर्गकेसे मुख वाले तथा खरगोश
 और उबलूकेसे मुख वाले तथा गधे और ऊँटकेसे मुख वाले और

मेदिनीम् ॥ ६६ । तस्य विक्रमतो भूमिं चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे ।
 नभः प्रक्रममाणस्य नाभ्यां किल समास्थितौ ॥ १०० ॥ परं
 प्रक्रममाणस्य जानुदेशे स्थितायुवी । विष्णोरतुलवीर्यस्य बद्धं-
 त्येवं द्विजातयः ॥ १ ॥ इत्वा स पृथिवीं कृत्स्नां जित्वा चासुर-
 पुङ्गवान् । दर्दां शक्राय त्रिदिवं विष्णुर्वलवान्तरः ॥ २ ॥ एष ते
 वामनो नाम प्रादुर्भावो महात्पनः । वेदविद्भिर्द्विजैरेवं कथ्यते
 वैष्णवं यशः ॥ ३ ॥ भूयोऽभूतात्मको विष्णोः प्रादुर्भावो महा-
 लातोसे सब तैत्थोका मर्दन करके अपने रूपको परम भयंकर
 बनाकर पृथिवीको जीतलिया ॥ ६६ ॥ जब यह पृथिवीको नाप
 रहे थे उस समय चन्द्रमा और सूर्य उनके स्तनों के बीचमें आ गए थे
 और जब वह आकाशको नाप रहे थे तब चन्द्रमा और सूर्य
 उनके नाभिमें आ गए थे ॥ १०० ॥ और अतुल वीर्यवाले विष्णु
 जब परको नाप रहे थे तब सूर्य और चन्द्रमा उनके जानुदेशमें
 आए थे यह बात ब्राह्मण कहते हैं (चन्द्रमा और सूर्यके बढने
 आदिके कारण यह बातें कही हैं) ॥ १०१ ॥ बलवानोंमें श्रेष्ठ
 विष्णुने सारी पृथिवीको जीतकर तथा श्रेष्ठ २ असुरोंको मारकर
 स्वर्ग इन्द्रके अर्पण कर दिया था ॥ १०२ ॥ मैंने तुझसे यह महात्मा
 वामनका प्रादुर्भाव कह दिया, वेदवेत्ता विद्वान् ब्राह्मण भी इसी
 प्रकार विष्णुके यशका कीर्तन करते हैं (वेदज्ञ विद्वान् इस प्रकार
 प्रमाण देते हैं कि- 'यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणोऽभिविन्तियन्ति भुवनानि
 विश्वाः-जिनके बड़े-पानी तीन कदम रखनेमें लोक समाजाते हैं') ३-
 इसके अतिरिक्त विष्णुका एक और भी अवतार सुना जाता है
 वह परमशान्तिपद अवतार दत्तात्रेय नामसे प्रसिद्ध है और यह
 अभूतारम्भक है अर्थात् अद्भुत होने पर भी मत्पन्न श्रुतिमूलक है,
 (श्रुतिमें लिखा है, कि- "यं वै सूर्य स्वर्भानु स्तमसाऽविध्यदासुरः
 अत्रयस्तमन्वविन्दन् न ह्यन्ये अशक्तु वन्-सूर्य(आत्मा) को राहु

महरणा घोरा नानावेपा महाजवाः । कूर्मकुक्कुटक्रांश्च शशो
 लूकमुखास्तथा ॥ ६२ ॥ खरोपूत्रदनारश्चैव वराहवदनास्तथा ।
 भीषा मरुतवक्राव क्रोष्टुवक्राश्च दानवाः । आखुददुरक्राश्च
 घोरा वृकमुखास्तथा ॥ ६३ ॥ मार्जारगजवक्रश्च महाकास्तथापरे ।
 नक्रमेयाननाः शूरा गोजीविमहिपाननाः ॥ ६४ ॥ गोत्राशन्यक-
 वक्राश्च कौवकशाश्च दानवाः । गरुडाननाः खड्गमुखा मयूर-
 वदतास्तथा ॥ ६५ ॥ गजेन्द्रचर्मरसतास्तथा कृष्णजनांसराः ।
 जीरसंतृणदेहाश्च तथा वल्कलवाससः । उष्णीपिणो, मुकुटिन-
 स्तथा, कुण्डलिनोऽमुराः ॥ ६६ ॥ किरीटिनो लंबशिखाः
 कन्दुसीराः सृचसः । नानावेपरा दैत्या नानापादाऽनु-
 लेनाः ॥ ६७ ॥ स्वान्पायुरानि संगृह्य मदीतन्वनिनेजसा ।
 क्रमायुं हृषीकेशमुपावर्तन्त सर्वराः ॥ ६८ ॥ प्रपश्य सर्वान्- दैते-
 यान् पादइस्ततलैः प्रभुः । रूपं कृत्वा महाभीमं जहाराशु स

मगररी समान भयंकर मुखवाले और सूअरकेसेमुखवाले और
 गीदड़केसे मुखवाले दानव तथा चूहे और मेंढककेसे मुख वाले
 और, भेड़ियेकेसे भयंकर मुख वाले तथा चिल्ली और हाथीकेसे
 मुखवाले तथा नाके और मेंढकेसे मुखवाले तथा गौ बहरी और
 भैंसकेसे मुखवाले तथा गोइ और सेईकेसे मुखवाले और कुररीकेसे
 मुखवाले दानव तथा गरुडकेसे मुखवाले खड्गकेसे मुखवाले मोर
 केसे मुखवाले और हाथीके चपड़ेके ओढ़नेवाले और कृष्णमृग
 की चर्मको ओढ़नेवाले और चिथड़ीमे ढकीहुई देहवाले और
 भोज वस्त्र पहरनेवाले तथा पंगडी और मुकुट पहरनेवाले असुर,
 किरीट धारण करनेवाले, शंखकी समान ग्रीवावाले और अनेक
 वेश धारण करनेवाले तथा अनेक प्रकारकी मलनेकी वस्तुओंको
 पहननेवाले ये सब अपने-अपने ग्रहण हृषीकेशको चारों ओरसे
 परकर खडे हो गए ८१ ६८३ उन प्रभुने अपने हाथके चपेटोंसे और

त्मनः । दत्तात्रेय इति ख्यातः क्षमया परया युतः ॥ ४ ॥ तेन
 नष्टेषु वेदेषु प्रक्रियासु मखेषु च । चातुर्वर्ण्ये तु संकीर्णं धर्मं
 शिथिलतां गते ॥५॥ अभिवर्धति चाधर्मं सत्ये नष्टेऽनृते स्थिते ।
 प्रजासु शीर्यमाणसु धर्मं चाकुलता गते ॥ ६ ॥ सह यज्ञक्रिया-
 वेदाः प्रत्यानीता इि तेन वै । चातुर्वर्ण्यं च संकीर्णं कृतं तेन महा-
 त्मना ॥ ७ ॥ तेन वैद्वयराजस्य कर्तवीर्यस्य धीमनः । वरदेन
 वरोदत्तो दत्तात्रेयेण धीमता ॥ ८ ॥ एतद्ब्राह्मद्वयं यत्ते मृधे मम
 कृतेऽनघ । शतानि दशत्राहूनां भविष्यन्ति न सशयः ॥ ९ ॥
 पालयिष्यसि कृत्स्नां च वसुधां वसुधाधिप । दुर्निरीक्ष्योऽरि-
 (पापा) अन्धकार (विपर्यय) से दृक्ता हुआ (अर्थात्)
 जीवत्वमें लेशमात्रा अत्रिके पुत्र (दत्तात्रेय) इस बातको जान सके
 थे औरोंको यह बात मतीत नहीं हुई . अतएव इस अवतारको
 ज्ञानमार्गका भवर्तक समझना चाहिये) ॥ १०४ ॥ उस समय
 वेद लुप्त होरहे थे तथा अनुष्ठान और यज्ञ लुप्तवाय होगए थे
 और चारों वर्ण संकीर्ण होरहे थे तथा धर्ममें शिथिलता, आगई
 थी अर्थात् धर्म कहीं कहीं ही दीखता था और अश्रम बहुरहा था
 सत्य लुप्त होगया और भूँडकी स्थापना होरही थी, प्रजाएँ क्रुश
 होती नारही थीं और धर्म आकुल होरहा था अर्थात् धर्म . अधर्म
 मिश्रित होरहा था ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ ऐसे समय उन महात्माने यज्ञ
 क्रिया और वेदको फिसु पृच्छ क्रिया था और उन महात्माने
 संकीर्ण हुए चातुर्वर्ण्यको असंकीर्ण कर दिया था ॥ १०७ ॥
 वरदान देने वाले बुद्धिमान् दत्तात्रेयने वैद्वयवंशी बुद्धिमान् कर्त-
 वीर्यको वर दिया था कि-१०८ हे निष्पाप ! युद्धके समय तेरी
 ये दो भुजाएँ मेरे वरदानसे दश सहस्र भुजाएँ होजाया करंगी,
 इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ १०९ ॥ हे वसुधाधिप ! तू सारी पृथ्वी
 का पालन करेगा : तथा तू धर्मज्ञ होगा और शत्रु तेरी ओर रुठि

वृन्दानां धर्मज्ञश्च भविष्यति ॥ १० ॥ एष ते वैष्णवः श्रीमान्
 प्रादुर्भावेद्भुतः शुभः कथितो वै महाराज यथाश्रुतमरिदम ।
 भूयश्च जामदग्न्योऽयं प्रादुर्भावो महात्मनः । यत्र बाहुसहस्रेण
 त्रिस्मितं दुर्जयं रणे । रामोऽर्जुनमनीकस्थं जघान नृपतिं प्रभुः १२
 रथस्थं पार्थिवं रामः पातयित्वाऽर्जुनं युधि । धर्पयित्वा यथाकामं
 क्रोशमानं च मेघवत् ॥ १३ ॥ कृत्स्नं बाहुसहस्रं च चिच्छेद
 भृगुनन्दनः । परश्वधेन दीप्तेन ज्ञातिभिः सहितस्य वै ॥ १४ ॥
 कीर्णां क्षत्रियकोटिभिर्मैरुमन्दरभूषणा । त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी
 तेन निःक्षत्रिया कृता ॥ १५ ॥ कृत्वा निःक्षत्रियां चैव भार्गवः
 सुमहातपाः । सर्वपापविनाशाय वाज्रमेधेन चेष्टवान् ॥ १६ ॥
 तस्मिन् यज्ञे महादाने दक्षिणां भृगुनन्दनः । मरीचाय ददौ पीतः

नतासे देख सकेंगे ॥ ११० ॥ हे अरिदमन ! मैंने तुझसे यह
 विष्णुका शोभाभय अद्भुत और शुभ अवतार जैसे सुना था तैमे
 सुना दिया इसके अतिरिक्त महात्मा विष्णुका परशुराम नामका
 एक और अवतार हुआ था ॥ १११ ॥ उस अवतारमें रणमें
 सहस्र भुजा निकल आनेसे विस्मित होते हुए अत एव दुर्जय
 सहस्रबाहुको उसकी सेनाके बीचमें प्रभु परशुरामने मार डाला
 था १२ भृगुनन्दन रामने रथमें बैठे हुए कार्तवीर्य अर्जुनको युद्धमें
 गिरा दिया और उसको उन्होंने दबाया उस समय वह मेघके
 गर्जनेकी समान डकराने लगा उस समय उसके भाइयोंके सामने
 तेज फरसेसे उसकी हजार भुजाओंको काट डाला था ११३। ११४
 इन परशुरामजीने करोड़ों क्षत्रियोंसे भरी हुई तथा मेरुपर्वत तथा
 मन्दराचलसे विभूषित पृथिवीको इकीस बार क्षत्रियहीन कर
 दिया था ॥ ११५ ॥ पृथ्वीको क्षत्रियशून्य करनेके अनन्तर भृगु-
 वंशी महातपस्वी परशुरामने अपने सब पापोंका नाश करनेके
 लिये अश्वमेध यज्ञ किया ॥ ११६ ॥ जिसमें बड़ाभारी दान दिया

कश्यपाय वसुन्तराम् ॥ १७ ॥ वारणांस्तुरगांश्चीघ्नान् रथ च
 रथिनां वरः । हिरण्यमन्त्रां धेनुर्गजेन्द्राश्च महामनाः । ददी
 तस्मिन् महायज्ञे वाजिमेषे महायशाः ॥ १८ ॥ अद्यापि च द्विवा-
 र्पाय लोकानां भृगुनन्दनः । चरमाणस्तपो दीप्तं जामदग्न्यः पुनः
 पुनः । तिष्ठते देववद्दीमान् महद्रे पर्वतोत्तमे ॥ १९ ॥ एष विष्णोः
 सुरेशस्य शाश्वतस्यान्ययस्य च । जामदग्न्य इति ख्यातः मादु-
 र्भावो महात्मनः ॥ १२० ॥ चतुर्विंशे युगे चापि विश्वामित्रपुरः-
 सरः । जज्ञे दशरथस्याथ पुत्रः पद्मायतेक्षणः ॥ २१ ॥ कृत्वा-
 ऽत्मानं महाबाहुरचतुर्धा प्रभुरीश्वरः । लोके राम इति ख्यात-
 स्तेजसा भास्करोपमः ॥ २२ ॥ पसादनार्थं लोकस्य रत्नसां
 निधनाप च । धर्मस्य च विद्वद्दर्पं जज्ञे तत्र महायशाः ॥ २३ ॥

जाता है ऐसे अश्वमेद यज्ञमें भृगुनन्दन रामने प्रसन्न होकर मरी-
 चिपुत्र कश्यपाको पृथ्वी दक्षिणामें देदी थी ॥ ११७ ॥ रथियोंमें
 श्रेष्ठ उन महायज्ञस्वीने महायज्ञ अश्वमेदयज्ञों हाथी तेज चलने
 वाले घोड़े रथ अनगिनती सुवर्ण गौ और श्रेष्ठ हाथी दक्षिणामें
 दिये थे ॥ ११८ ॥ देवताकी समान बुद्धिमान् भृगुनन्दन परशु-
 राम आज कल भी लोकोंका हित करनेके लिये पर्वतश्रेष्ठ महेंद्र-
 पर्वत पर प्रदीप्त तप कर रहे हैं । ११९ । शाश्वत और अव्यय
 देवताओंके ईश महात्मा (विष्णु) का यह परशुराम नामक अव-
 तार कहा १२० चौबीसवें युगमें विश्वामित्रको आगे करके कमल
 की समान चौड़े नेत्र वाले विष्णु दशरथके पुत्र बन कर उत्पन्न
 हुए हैं १२१ वह प्रभु (उस अवतारमें) अपनेको चार भागोंमें
 विभक्त कर उत्पन्न हुए थे और तेजमें सूर्यकी समान कान्ति-
 मान् वह महाशुभ्र लोकमें रामनामसे प्रसिद्ध हुए थे ॥ १२२ ॥
 वह महायज्ञस्वी मंसारको प्रसन्न करनेके लिये और रत्नसोंको
 पारनेके लिये और धर्मकी वृद्धि करनेके लिये उत्पन्न हुए थे २३

तपस्याहुर्मनुष्येन्द्रं सर्वभूतपतेस्तनुम् । यस्मै दत्तानि चास्त्राण्य
 विश्वामित्रेण धीमता ॥ २४ ॥ वधार्थं देवशत्रूणां दुर्धरानि सुरै-
 रपि । यज्ञविघ्नकरो येन मुनीनां भावितात्मनाम् ॥ २५ ॥ मागी-
 चश्च सुबाहुश्च बलेन बलिनां वरौ । निह्नौ च निराशौ च
 कृतौ तेन महात्मना ॥ २६ ॥ वर्नमाने मखे येन जनकस्य महा-
 त्मनः । भग्नं माहेश्वरं चापं क्रीडता लीलया पुरा ॥ २७ ॥
 यः समाः सर्वधर्मैश्चतुर्दशवनेऽवमत् । लक्ष्मणानुचरो रामः
 सर्वभूतहिते रतः ॥ २८ ॥ रूपिणी यस्य पार्श्वस्था सीतेति
 प्रथिता जनैः । पूर्वोचिता तस्य लक्ष्मीर्भर्तारमनुगच्छति ॥ २९ ॥
 चतुर्दश तपस्तप्त्वा वने वर्षाणि राघवः । जनस्थाने वसन् कार्यं

प्राणी उन मनुष्येन्द्रको सब भूतोंके स्वामी (विष्णुका अवतार)
 तनु बताते थे, बुद्धिमान् विश्वामित्रने इनको अस्त्र दिये थे ॥ २४ ॥
 देवताभी जिन अस्त्रोंको कृद्धिनतासे धारण कर सकने थे ऐसे
 ऐसे अस्त्र देवताओंके शत्रुओंका वध करनेके लिये विश्वामित्रने
 रामचन्द्रजीको दिये थे, उन महात्माने पवित्र-अन्तःकरण वाले
 महात्माओंके यज्ञमें विघ्न डालने वाले बलियोंमें श्रेष्ठ मारीच और
 सुबाहुको निराश करके मार डाला था ॥ १२५ ॥ १२६ ॥
 और उन्होंने राजा जनकके यहाँ यज्ञमें खेलखेलमें ही शिवजीके
 धनुषको तोड़ डाला था ॥ १२७ ॥ और सब प्राणियोंके हितमें
 परायण सब धर्मोंके तत्त्वको जानने वाले रामने लक्ष्मणके साथ
 चौदह वर्ष तक वनमें निवास किया था ॥ १२८ ॥ पहिले जन्म
 में लक्ष्मी नामकी उनकी जो योग्य भार्या थी, उस रूपिणीको
 उस समय उनके समीपमें रहने पर मनुष्य सीता कहते थे, वह
 भी उनके पीछे २ गई थी ॥ १२९ ॥ रघुवंशी रामचन्द्रने चौदह
 वर्ष तक वनमें तप किया था और उन्होंने दण्डकारण्यमें रहते
 समय देवताओंका कार्य किया था, लक्ष्मण जिनके पीछे २ चलते

त्रिदशानां चकार ह । सीतायाः पद्मन्विच्छंल्लक्ष्मणानुचरो
 विभुः ॥ १३० ॥ विराधं च कन्द्यं च राक्षसौ भीमविक्रपौ ।
 जघान पुरुषण्याघ्रौ गन्धर्वां शम्भुक्षितौ ॥ ३१ ॥ हुनाशना-
 केंदुनदित्यनाभैः प्रतप्तजांबूनदनित्रपुंखैः । महेंद्रवज्राशनितुष्य-
 सारैः शरैः शम्भुरेण विभोजितौ घलात् ॥ १३२ ॥ सुग्रीवस्य
 कृते येन वानरेन्द्रो महाबलः वाली विनिहतो युद्धे सुग्रीवरचाभि-
 पेचिनः ॥ ३३ ॥ देवासुरगणानां हि यत्तगन्धर्वगभोगिनाम् ।
 अन्वयं राक्षसेन्द्रं तं रावणं युधि दुर्जयम् ॥ ३४ ॥ युक्तं राक्षस-
 कोटीभिर्नोलाननचभोपमम् । त्रैलोक्यरावणं घोरं रावणं राक्ष-
 सेश्वरम् ॥ ३५ ॥ दुर्जयं दुर्धरं दप्तं शार्दूलसर्पाग्रमम् । दुर्नि-

धे ऐसे रामने सीताका पना चाहनेके लिये हुँवते २ विराध और
 कन्द्य नाम वाले राक्षसोंको मार डाला था, पहिले ये गन्धर्व थे
 शाप देकर इनको भयंकर पराक्रम करने वाले राक्षस बना दिया
 था ॥ १३० ॥ १३१ ॥ इन राक्षसोंको रामचन्द्रजीने अग्नि
 सूर्य चन्द्रमा विजली और मेघकी समान आभा वाले और तपाये
 हुए सुवर्णकी पूँछड़ी वाले और इन्द्रके वज्रकी समान सार वाले
 बाण मार कर बलपूर्वक शरीरसे पृथक् कर दिया था । १३२।
 उन्होंने सुग्रीवके लिये महाबली वानरेन्द्र वालीको मार कर सुग्रीव
 का अभिषेक कर दिया था १३३ रामने देवता असुर यत्त गंधर्व
 और सर्पोंसे भी अन्वय युद्धमें दुर्जय हजारों राक्षसोंसे विरेहूप
 और काले अञ्जनके ढेरकी समान (काले भुच्च) दुर्जय और
 दुर्धर और मिहकी समान पराक्रम करने वाले तथा वरदानसे
 घमण्डमें भरे हुए और जिसकी ओरको देवता भी आँख उठा
 कर कठिनतासे देख सकते थे ऐसे त्रिलोभीको रूताने वाले
 राक्षसेश्वर रावणको और उसके मन्त्रियोंको तथा उसकी सेना
 को मार डाला था, पहिले भूतपति रामने महामेघकी समान बड़े

रीक्ष्यं सुरगणैर्वरदानेन दर्पितम् ॥ ३६ ॥ जघान सचिवैः सार्धं
 ससैन्यं रावणं युधि । महाभ्रघनसंकाशं मराकायं महाबलम् ३७
 तमागस्कारिणं घोरं पौलस्त्यं युधि दुर्जयम् । सभ्रातृपुत्रसचिवं
 ससैन्यं क्रूरनिश्चयम् ॥ ३८ ॥ रावणं निजगानाशु रामो भूत-
 पतिः पुरा । ममोरच तजयो दृष्टो लवणो नाम दानवः ॥ ३९ ॥
 हतो मधुवने वीरो वरदृष्टो महासुरः । समरे युद्धशौडेन तथा
 चान्येऽपि राज्ञमाः ॥ १४० ॥ एतानि कृत्वा कर्माणि रामो
 धर्मभृतां वरः । दशाश्वमेवान् जाख्ख्यानामहार निरर्गलान् ४१
 नाश्रूयन्ताशुभा दाचो नाकुलं मारुतो वचो । न वित्तहरणं त्वासी-
 द्रामे राज्यं प्रशासति ॥ ४२ ॥ पर्यदेवन्न विधवा नानर्थारचा-
 भवंस्तदा । सर्वमासीज्जगदान्तं रामे राज्यं प्रशासति ॥ ४३ ॥

भारी शरीर वाले महाबली अपराधी युद्धमें दुर्जय पुलस्त्यवंशी
 रावणको उसके भाइयोंको उसके पुत्रोंको और उसकी सेनाको
 मार डाला था, इन सबने पहिले पापका विचार किया था मधु दानव
 के पुत्रका नाम लवण था वह बड़ा घमण्डी था ३४।३९ वरसे घमंड
 में भरे हुए उस बड़े भारी राज्ञसको मधुवनमें रामचन्द्रने मार
 डाला था और सपरचतुर रामने सपरमें और भी बड़े २ राज्ञसों
 को मार डाला था १४० इन कर्मोंको करनेके अनन्तर धर्मधारियों
 में श्रेष्ठ रामने निष्कण्टक रीतिसे दश अश्वमेध यज्ञ किये थे और
 उनमें तिगुनी २ दक्षिणा दी थी १४१ रामचन्द्रजीके शासनकाल
 में अशुभ वाणियों (गालियों) सुनाई नहीं आती थी और व्या-
 कुल करने वाला वायु नहीं चलता था और कोई किसीके धनको
 भी नहीं चुराता था १४२ उनके राज्यमें विधवायों विलाप नहीं
 करती थी और उनके राज्यमें अनर्थ भी नहीं होते थे, रामचन्द्र
 जिस समय राज्य करते थे, उस समय सारी प्रजा चतुर होगई
 थी और पृथिवी डाँकुरियोंसे शुन्य होगई थी १४३ उनके राज्यमें

न प्राणिनां भयं चापि जलानिजनिघातनम् । न च स्म वृद्धा
 बालानां मेनकार्याणि कुर्वते ॥ ४४ ॥ ब्रह्म पर्यचरत्क्षत्रं विशः
 क्षत्रमनुव्रताः । शूद्रारचैव हि वर्णास्त्रीन् शुश्रूषन्त्यनहंकृताः ।
 नार्यो नात्यचरन् भर्तृन् भार्यां नात्यचरत् पतिः ॥ ४५ ॥ सर्व-
 मासीज्जगद्दान्तं निर्दस्युरभवन्मही । राम एकोऽभवद्भर्ता रागः
 पालयिताऽभवत् ॥४६॥ आयुर्वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः ।
 अरोगाः प्राणिनश्चासन् रामे राज्यं प्रशासति ॥४७॥ देवता-
 नामृषीणां च मनुष्याणां च सर्वशः । पृथिव्यां समागोऽभू-
 द्रामे राज्यं प्रशासति ॥४८॥ गाथा अप्यत्र गायन्ति ये पुराण-
 विदो जनाः । रामे निबद्धतत्त्वार्था माहात्म्यं तस्य धीमतः ४६

प्राणियोंको जल और घातका दुःख नहीं होता था अर्थात् उनके
 राज्यमें न कोई प्राणी डूबता था न कोई जलता था और न कोई
 फौसी लगा कर मरता था और न वृद्ध मनुष्य अपने बालकोंका
 प्रेतकार्य करते थे ॥१४४॥ (उनके राज्यकालमें) क्षत्रिय ब्राह्मणों
 की सेवा करते थे दैश्य क्षत्रियोंके अनुकूल रहते थे और शूद्र
 अहंकाररहित हो तीनों वर्णोंकी सेवा करते थे, भार्याएँ पतिका
 उल्लंघन नहीं करती थीं और पति भी स्त्रियोंके प्रतिकूल बर्ताव
 नहीं करते थे ॥ १४५ ॥ उनके शासनकालमें सब जगत् चतुर
 होगया था और पृथिवी लुटेरोंसे शून्य होगई थी, राम ही मजा
 का भरण पोषण करते थे और राम ही उसका पालन करते थे ४६
 रामचन्द्रजीके राज्यकालमें मनुष्योंकी (ग्यारह) हजार वर्षोंकी
 आयु होती थी और पुरुषोंके हजार २ पुत्र होते थे और प्राणी
 नीरोग रहते थे ॥१४७॥ रामचन्द्रजीके शासनकालमें पृथिवीमें
 सर्वत्र देवता अष्टि तथा मनुष्योंमें समागम होता रहता था १४८
 रामचन्द्रजीके तत्त्वको जाननेवाले जो पुराणवेत्ता पुरुष हैं वे राम-
 चन्द्रजीके माहात्म्यसे भरीहुई गाथाओंको गानेरहते हैं ४६कि अयो-

रयामो युवा लोहितान्नो दीप्तास्यो मितभाषिता, आजानुवाहुः सुमुखः
 सिंहस्कन्धो महाभुजः १५० दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च ।
 अयोध्याधिपतिर्भूत्वा रामो राज्यमकारयत् । ५१ ॥ ऋक्साम-
 यजुषां घोषो ज्याघोपश्च महात्मनः । अयुच्छिन्नोऽभवद्राज्ये
 दीयतां भुज्यतामिति ॥ ५२ ॥ सत्त्ववान् गुणसम्पन्नो दीप्य-
 मानः स्वतेजसा । अतिचन्द्रं च सूर्यं च रामो दाशरथिर्वर्षा ५३
 ईजे क्रतुशतैः पुण्यैः समाप्तवरदक्षिणैः । हित्वाऽयोध्यां दिवं
 यातो राघवः स महाबलः ॥ ५४ ॥ एवमेव महाबाहुरिच्छ्वाकु-
 कुलनन्दनः । रावणं सगणं हृत्वा दिवमाचक्रमे प्रभुः ॥ ५५ ॥
 वीशम्पायन उवाच । अपरः केशवस्पायं प्रादुर्भावो महात्मनः ।
 त्रिख्यातो माथुरे कल्पे सर्वलोकहिताय वै ॥ ५६ ॥ यत्र शाव्वं

ध्यामं रयाम वर्णवाले तरुण लाल रनेत्रोंवाले प्रदीप्त मुखवाले मित-
 भाषी आजानुवाहु सुन्दरमुख सिंहकी समान स्कंधवाले महाभुज
 रामने अयोध्याके राजा बनकर ग्यारह हजार वर्षतक राज्य किया
 था ५०।५१उन महात्माके यहाँ ऋक् यजु और सामवेदका और
 धनुषकी प्रत्यञ्चाका शब्द कभी बन्द ही नहीं होता था ५२सत्त्व-
 वान् और गुणवान् दशरथके पुत्र राम अपने तेजसे सूर्य और
 चन्द्रमासे भी अधिक दिपते थे ५३ और उन्होंने जिनको श्रेष्ठ
 श्रेष्ठ दक्षिणा देकर समाप्त किया था ऐसे एक सौ पुण्यमय यज्ञ
 किये थे इसके उपरान्त बड़ी भारी सेनावाले (और मजा वाले
 राम उसके साथ ही ; राघव अयोध्याको छोड़ कर स्वर्गको चले
 गये थे ॥ ५४ ॥ इस प्रकार यह महाभुज इच्छ्वाकु कुलनन्दन राम
 रावणको और उसके अनुचरोंको मार कर स्वर्गमें गए थे ५५
 वीशम्पायनजीने कहा, कि-इसके अतिरिक्त माथुरकल्पमें यह सब
 लोकोंका हित करने वाला महात्मा केशवका अवतार प्रसिद्ध
 है ५६ इस अवतारमें वीर्यवान् विष्णुने शाव्व मंद द्विविद कंस

च मैतृं च द्विविदं कं मेव च । अरिष्टमृगभं केशिं पूतनां दैत्य-
दारिकाम् । ॥ ५७ ॥ नागं कुवलयपीडं चाणूरं मुष्टिकं तथा ।
दैत्यान् मानुषदेहस्थान् सूदयामास वीर्यवान् ॥ ५८ ॥ छिन्नं
बाहुसहस्रं च बाणस्राद्धाकर्मणः । नरकरच हनः संख्ये यव-
नरच महाबलः ॥ ५९ ॥ हृतानि च महीपानां सर्वरत्नानि तेजसा ।
दुराचाराश्च निहता पार्थिवारच महीतले ॥ ६० ॥ नवमे द्वापरे
विष्णुरष्टाविंशो पुराऽभवत् । वेदव्यासस्तथा जज्ञे जातूकर्यपुरः
सरः ॥ ६१ ॥ एको वेदभतुर्धा तु कृतस्तेन महात्मना । जनितो
भारतो वंशः सत्यवत्याः सुतेन च ॥ ६२ ॥ एते लोकहितार्थाय
प्रदुर्भावा महात्मनः । अतीताः कथिता राजन् कथयन्ते चाप्य-
नागताः ॥ ६३ ॥ कन्की विष्णुयशा नाप शम्भलग्रामको द्विजः ।

अरिष्ट ऋषि । केशी दैत्यदारिकापूतना कुवलयपीड हाथी चाणूर
मुष्टिक (इनके अतिरिक्त दूसरे भी) मनुष्यदेहधारी दैत्योको मार
डाला था । ५७।५८। इन्होंने अर्द्धाकर्म करने वाले बाणासुरके
हजारहाथोंको काटडाला था और युद्धमें महारली नरक और
यवनको मारडाला था १।५९ (और इन्होंने अपने पराक्रमसे सब
राजाओंके रत्नोंको छीनलिया था और पृथिवीके दुराचारी राजाओं
का तो संहार ही करडाला था १६० अठारहवें द्वापरमें विष्णुका
यह नवम अवतार हुआ है और जातूकर्यके साथ (दशवाँ)
व्यास अवतार हुआ है (यहाँ अनुक्त मत्स्य और कूर्म अवतारों
का भी ग्रहण करना चाहिये तभी नौ की सङ्ख्या पूर्ण होती
है) ॥ १६१ ॥ उन सत्यवतीके पुत्र महात्मा व्यासजीने एक वेदके
चार विभाग किये थे और भरतवंशको चलाया था ॥ १६२ ॥
हे राजन्! महात्मा विष्णुके लोकका हित करनेके लिये जो अव-
तार हुए थे वे कहदिये अब नौ भविष्य अवतारोंको कहता हूँ ६३
प्रभु फिर सब भूतोंका हित करनेके लिये शम्भलग्राममें ब्राह्मणरूप

सर्वलोकहितार्थाय भूपरचोत्पत्स्यते प्रभुः ॥ ६४ ॥ दशमो भाव्य-
सम्पन्नो याज्ञवल्क्यपुरःसरः । क्षपयित्वा च तान् सर्वान् भावि-
नार्धेन चोदितान् । ६५ ॥ गंगायमुनयोर्मध्ये निष्ठां प्राप्स्यति
सानुगः । ततः कुले व्यतीते तु सामात्ये सदसैनिके ॥ ६६ ॥
वृषेष्वथ प्रणष्टेषु तदा त्वमग्रहाः प्रजाः । क्षणेन निर्वृते चैव
हत्वा चान्योन्यमाहवे ॥ ६७ ॥ परस्परहृतस्वारच निराक्रन्दाः
सुदुःखिताः । एवं कष्टमनुपाप्ताः कलिसन्ध्यांशके तदा । प्रजाः

में विष्णुयशा कल्कि नामसे उत्पन्न होंगे ॥ १६४ ॥ यह दशमो
भाव्यसम्पन्न याज्ञवल्क्यपुरःसर अवतार होगा (भव (संसार)
की उत्पत्तिकी प्रशंसा करने वाले भाव्य (क्षणिकवादी बौद्धों)
के साथ भी वह नाद और युद्ध करनेके लिये उतर पड़े थे अतः
यह अवतार भाव्यसम्पन्न कहलाता है) उन भावि अर्थसे
प्रेरितोंका विष्णुने संहार कर डाला था (अर्थात् पूर्वोक्त वात
की प्रशंसा करते हुए विष्णुके ही अंशसे उत्पन्न हुए भगवान्
बुद्धने कल्पियुगमें दम्भयज्ञकी प्रवृत्तिसे लोकका नाश न हो इस
लिये यज्ञकी निन्दाका जिनको उपदेश दिया जाता था उनको
विष्णुने मार डाला था कल्कि अवतार बौद्धपक्षका क्षय करनेके
लिये हुआ है यह बात पहिले कहदी) ॥ ६५ ॥ तदनन्तर वह
गङ्गा और यमुनाके मध्यमें समाप्त होजावेंगे (शंका-शास्त्रोंमें
लिखा है, कि-कल्कि म्लेच्छोंका निग्रह करेगे फिर उनकी अभी
समाप्ति कैसे लिखी है, इसका उत्तर यह है, कि-) जब कुल
व्यतीत होजायगा अर्थात् परस्परकी स्त्रियोंके छीननेसे कुल नष्ट-
प्राय होजायगा राजा सेना और मन्त्री नष्ट होजावेंगे तब प्रजा
नियन्तारहित होजायगी तब प्रजा क्षणभरमें परस्परका संहार
करके नष्ट होजायगी ॥ ६६-६७ ॥ कलिका सन्ध्यांश आनेपर
जब पशुप्य परस्परके धनको छीन लेंगे और दुःखित होकर

क्षयं पयास्यन्ति सार्धं कल्पियुगेन ह ॥ ६८ ॥ क्षीणे कल्पियुगे
 तस्मिंस्ततः कृतयुगं पुनः । प्रपत्स्यते यथान्यायां स्वभावादेव
 नान्यथा ॥ ६९ ॥ एते चान्ये च बहवो दिव्या देवगुणैर्युताः ।
 प्रादुर्भावाः पुराणेषु गीयन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ ७० ॥ यत्र देवापि
 सुहृन्ति प्रादुर्भावानुकीर्तने । पुराणं वर्तते यत्र वेदश्रुतिसमा-
 हितम् ॥ ७१ ॥ एतदुद्देशमात्रेण प्रादुर्भावानुकीर्तनम् । कीर्तितं
 कीर्तनीयस्य सर्वलोकगुरोः प्रभोः ॥ ७२ ॥ प्रीयन्ते पितरस्तस्म
 प्रादुर्भावानुकीर्तनात् । विष्णोरतुलवीर्यस्य यः शृणोति कृतां-
 जलिः ॥ ७३ ॥ एतास्तु योगेश्वरयोगमायाः श्रुत्वा नरो मुच्यति

रोने लगेंगे उस समय प्रजा कल्पियुगके साथही विनष्ट हो
 जावेगी ॥ ६८ ॥ उस कल्पियुगके क्षीण होनेपर न्यायानुसार
 स्वभावतः फिर सत्ययुगकी प्रवृत्ति होगी इसमें लौट फेर नहीं हो
 सकता ॥ ६९ ॥ ब्रह्मवादी पुरुषोंने पुराणोंमें इन अवतारोंका
 तथा और भी बहुतसे दिव्य और देवगुणसम्पन्न अवतारोंका
 कीर्तन किया है ॥ १७० ॥ जिन अवतारोंका कीर्तन करनेमें
 देवता भी मोहमें पड़ जाते हैं और जिन अवतारोंको पुराणोंमें
 वेदकी श्रुतिका प्रमाण देकर सिद्ध किया है ॥ ७१ ॥ सब लोकोंके
 गुरु कीर्तनीय प्रभु विष्णुके उन कुछ अवतारोंका यह वर्णन
 संक्षेपसे कर दिया ७२जो पुरुष हाथ जोड़ कर विष्णुके अवतारों
 को सुनता है तो अवतारोंका कीर्तन करनेसे उसके पितर
 प्रसन्न होजाते हैं ॥ ७३ ॥ मनुष्य इन योगेश्वरकी योग-
 मायाओंको सुन कर भगवान्के प्रसादसे सब पापोंसे छूट जाता
 है और समृद्धि (धर्मफलसे मिलने वाली सम्पत्ति) और श्रद्धा
 (योगेश्वर्य) को तथा विपुल भोगोंको पाता है (तात्पर्य-भग-
 वान्के ये अवतार योगमाया ही हैं, तात्त्विक नहीं हैं अर्थात्
 भगवन्लीला भी हमारे समान रागपूर्विका ही है, मन्त्र भी कहता

सर्वपापैः । श्रद्धिं समृद्धिं विपुलाश्च भोगान् प्राप्नोति सर्वं भग-
वत्प्रसादात् ॥ १७४ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो हरिवंशपर्वणि
एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

वैशम्पायन उवाच । विश्वत्वं शृणु मे विष्णोर्हरित्वं च कृते
युगे । वैकुण्ठत्वं च देवेषु कृष्णत्वं मानुषेषु च ॥ १ ॥ ईश्वरत्वं

है, कि—“ यद्वरस्त्वन्वा वाटशानो बलानीन्द्र प्रवृत्वाणो जनेषु
मायेत् सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाथ शत्रुं न पुरा विव्रित्ते
हे इन्द्र ! हे (परेमशर) आपने जिन मत्स्य कूर्म आदि शरीरोंसे
विवरण किया है और (वामनावतारमें) बड़ कर महत्त्व पाया
है और संसारमें अपने पृथ्वी उद्धार आदि बलके कार्योंके
प्रसिद्ध किया है, यह सब आपकी माया ही है देवासुर संग्राम
आदि सब माया ही हैं, क्योंकि—आजकल क्या और प्राचीन
कालमें क्या आपको तो कोई (नाशनीय) शत्रु मिल ही नहीं
सकता अर्थात् आप तो सबके अन्तरात्मा हैं अतः आपका कोई
शत्रु हो ही नहीं सकता इस कारण पुराण स्वप्नकी समान भग-
वान्के अवतार और लीलाओं का वर्णन करते हैं वास्तवमें पर-
ब्रह्मका कोई शत्रु है ही नहीं) १७४इकतालीसवाँ अध्याय समाप्त

वैशम्पायनजीने कहा, कि-तुम कृतयुगमें विष्णुके विश्वत्त्वको
सुनो और हरित्वको सुनो तथा देवताओंमें श्रीकृष्णके वैकुण्ठत्व
और पुरुषोंमें उनके श्रीकृष्णत्वको सुनो और हे राजन् !
तुम उनके ईश्वरत्व और उनके भावी और वर्तमान रूपोंकी गहन
गतिको सुनो (नाट्य-पहिले कहा, है, कि-जब धर्मकी ग्लानि
होने लगती है तब भगवान् प्रकट होते हैं, वह धर्मग्लानि असुरोंका
उदय होने पर होती है अतः उनका वध करनेसे विष्णुके जगद्रक्ष-
कत्व रूपका विश्वमित्यादि श्लोकसे निरूपण करते हैं, (प्राणी

न तस्येदं गहनां कर्मणां गतिम् । संपत्यतीतां भाव्यां च शृणु
 राजन् यथातथम् ॥ २ ॥ अव्यक्तो व्यक्तलिंगस्थो यत्रैष भग
 वान् प्रभुः । नारायणो अनन्तात्मा प्रभवोऽव्यय एव च ॥ ३ ॥
 एष नारायणो भूत्वा हरिरासीत् कृते युगे । ब्रह्मा शक्रश्च सोमश्च
 जिसका अधिक विश्वास करते हैं वह विश्व कहलाता है अर्थात्
 वह आश्वसनकर्ता और अभयदाता है, वह दुरित दीनता आदि
 दुःखोंके हारक नाशक होनेसे हरि कहलाते हैं इनके ऐसे रूपोंका
 वैशम्पायनजी वर्णन करते हैं तथा इनके देवताओंमें गतिप्रतिपात-
 कत्वके कुण्ठनत्वका वर्णन करेंगे अर्थात् वे सात्त्विकभाव
 सम्पन्न देवताओंका पालन करनेके लिये किसी कामको करने
 से मुख नहीं मोड़ते हैं इसका वैशम्पायनजी वर्णन करेंगे और
 रजोगुण तथा तमोगुणसे ग्रस्त मनुष्योंमें कृष्णत्वका वर्णन करेंगे
 कृपिर्भूवाचकः शब्दो एव निर्वृत्तिवाचकः कृपि भूवाचक शब्द है
 और ए आनन्दवाचक शब्द है अर्थात् मनुष्योंमें केवल सत्ता-
 रूपसे और सांसारिक आनन्दरूपमें उनके अस्तित्वको सुनो तथा
 मध्यम प्राणियोंमें ईश्वरत्व(निग्रह और अनुग्रह करनेकी शक्ति)
 को इस प्रकारकी भूत भाविष्यत् और वर्तमान कालकी भगवान्
 की नाना प्रकारकी गतिको और लीलाओंको सुनो ॥ १-२ ॥
 यह भगवान् प्रभु अव्यक्त होने पर भी व्यक्तलिंग हैं अर्थात्
 यह नारायण प्रस्य आदि अवतारोंमें व्तक्त (प्रकट) चिन्हको
 धारण करते हैं, यह नारायण अनन्तात्मा प्रभव और अव्यय
 है ॥ ३ ॥ कृतयुगमें यह नारायण होकर (जगत्को रचनेके
 अगन्तर उसमें प्रवेश कर जीवत्वका अनुभव कर फिर जीवत्वके
 हर्ता बन कर जीवित ही मुक्त होकर) हरि नाके मास होगए
 थे अर्थात् सत्ययुगमें पुरुष शीघ्र ही मुक्त होनाते हैं, ब्रह्मा
 आदि भी इनके ही रूपहैं यही बात कहते हैं, कि-) तदनन्तर यह

धमः शुक्रो बृहस्पतिः ॥ ४ ॥ अदितेरपि पुत्रत्वमेत्य यादव-
नन्दनः । एष विष्णुरिति ख्योत इन्द्रदावरजोऽभवत् ५ प्रसादजं
हस्य विभोरदित्याः पुत्रजन्म तत्त्वार्थं सुरशत्रूणां दैत्यदानव-
रत्नसाग् ॥ ६ ॥ प्रधानात्मा पुरा ह्येष ब्रह्माणमसृजत् प्रभुः ।
सोऽसृजत् पूर्वपुरुषः पुराकल्पे प्रजापतीन् ॥ ७ ॥ ते तन्वाना-
स्तनूस्तत्र ब्रह्मवंशाननुत्तमान् । तेभ्योऽभवन्महात्मभ्यो बहुधा
ब्रह्म शाश्वतम् ॥ ८ ॥ एतदारचर्यभूतस्य विष्णोर्नामानुकीर्त-
नम् । कीर्तनीयस्य लोकेषु कीर्त्यमानं निबोध मे ॥ ९ ॥ वृत्ते
वृत्रवधे तात वर्तमाने कृते युगे । आसीत् त्रैलोक्यविख्यातः संग्राम-
स्तारकामयः ॥ १० ॥ तत्रासन् दानवा घोराः सर्वे संग्रामदर्षिताः ।

यादवनन्दन विष्णु ब्रह्मा इन्द्र चन्द्र धर्म शुक्र बृहस्पति हुए थे
इसके अनन्तर यह अदितिके पुत्र बन कर उत्पन्न हुए थे उस
जन्ममें यह इन्द्रके छोटे भाई बने थे ॥ ४-५ ॥ देवताओंके शत्रु
दैत्य दानव और राक्षसोंका संहार करनेके लिये विष्णु अदितिके
यहाँ पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए थे, यह उनका प्रसाद था अर्थात्
अदितिके उन्होंने पुत्र बनकर उत्पन्न होनेका वरदान दिया था
इस प्रधानात्मा (मायामय शरीरवाले) ने ब्रह्माजीको रचा
उस पूर्वापुरुषने पूर्वाकल्पमें प्रजापतियोंको रचा था ॥ ७ ॥ उन्होंने
करपप आदिके रूपसे अपने शरीरका विस्तार कर सर्वश्रेष्ठ
ब्रह्मजंशोंको (गोत्रोंको वा शाखाओंकी) रचा था, उन महात्माओं
से वेद शनैक शाखाओंमें बँट गया ॥ ८ ॥ लोकोंमें कीर्तनीय
आश्चर्यमय विष्णुके इस (वेदरूप) नामकीर्तनको मेरे कीर्तन
कहने पर मुनो(शीनक मुनिने कहा है कि-वेदान्तराणि यावन्ति
कथितानि द्विजातिभिः । तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न
न संशयः) ॥ ९ ॥ हे तात ! कृतयुगके समय जब वृत्रवध होचुका
था तब त्रिलोकीमें मतिद्व तारकामय संग्राम हुआ था ॥ १० ॥

धनन्ति देवगणान् सर्वान् सयत्नोरगरात्तप्तान् ॥ ११ ॥ ते वध्य-
 माना विमुखाः क्षीणप्रहरणा रणे । ज्ञानारं मनसा जग्मुर्देवं
 नारायण हरिम् ॥ १२ ॥ एतस्मिन्नन्तरे मेघा निर्वाणान्गार-
 वर्षिणः । सार्कचन्द्रग्रहण व्यादयन्तो नभस्तलम् ॥ १३ ॥ चंच-
 द्विद्युद्गणाविद्धा धोरा निर्हादकारिणः । अग्नोन्मवेगाभिहताः
 प्रववुः सप्तमासताः ॥ १४ ॥ दीप्तनोयाशनीपातैर्वज्रवेगानिला-
 कुलैः । ररास घोरैरुत्पातैर्दक्ष्यमानमिवांबरम् ॥ १५ ॥ पेतुरन्का
 सहस्राणि मुहुराकाशगान्यपि । न्युञ्जानि च विमानानि
 प्रपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ १६ ॥ चतुर्युगान्तपर्याये लोकानां यद्भयं
 भवेत् । तादृशान्येव रूपाणि तस्मिन्नुत्पातलक्षणैः ॥ १७ ॥ तमसा
 उस समय संग्राममें दर्पमें भरे रहनेवाले दानवोंने देवता यज्ञ
 राक्षस और सर्पोंको मारना आरम्भ कर दिया था ॥ ११ ॥
 रणमें युद्ध करते २ जब उनके आयुध क्षीण होगए तब वे
 विमुख होकर भागने लगे और मन २ में रक्तक और शरण
 देने वाले भगवान् हरिका स्मरण करनेलगे ॥ १२ ॥ इस समय
 मेघ (जबलारहित परन्तु तप्त) अद्धारोंको बरसाते थे वे अद्धार
 सूर्य चन्द्रमा आदि नक्षत्रोंको ढकते हुए आकाशमें दिखाई देते
 थे ॥ १३ ॥ चमकती हुई विजलियोंसे विधे हुए और भयंकर
 शब्द करनेवाले सात पवन आपसमें टकरा कर चलने लगे १४
 जलवी हुईसी उल्का और तपे हुए जलके गिरने पर घोर
 उत्पात होने पर आकाश जलता हुआ सा दीखने लगा १५
 उस समय सैकड़ों ऐसी उल्कायें पड़ती थीं जो पृथ्वी पर गिरती
 थीं और फिर आकाशमेंको उड़ जाती थीं और बहुतसे विमान
 नीचेको मुख करके गिरते थे और उलटे ही उड़ते थे ॥ १६ ॥
 चतुर्युगान्तपर्यायमें अर्थात् अवान्तर मलयमें मनुष्योंको जैसे
 भयदायक उत्पात दीखते हैं इस उत्पातके समय भी मनुष्योंको

निष्पन्नं सर्वं न प्राज्ञायन किं वन । निमिरौत्रपरिक्षिप्ता न रेजुश्च
 दिशो दश ॥१८॥ निशेव रूपिणी काली कालमेधावगुण्डिता ।
 द्यौर्न भात्यभिभूतार्का घोरेण तमसा वृता ॥ १९ ॥ तान् धनौ-
 घान् सतिमिरान् दोर्भ्यामुत्क्षिप्य स प्रभुः । वपुः संदर्शयामास
 दिव्यं कृष्णवपुहंरिः ॥ २० ॥ बलाहकांजननिभं बलाहकत-
 नूहम् । तेजसा वपुषा चैत्र कृष्णं कृष्णमित्रानलम् ॥ २१ ॥
 दीप्तपातांबरधरं तप्तकांचनभूषणम् । धूमांधकारवपुषा युगां-
 ताग्निमिवोत्थितम् ॥ २२ ॥ चतुर्द्विगुणपीनांसं बलाकापंक्ति-
 भूषणम् । चामीकरकराकारैरायुधैरुपशोभितम् ॥ २३ ॥ चंद्रार्क-
 किरणोद्यन्तं गिरिकूटं शिलोच्चयम् । -नन्दकानन्दितकरं शरा-

इसी प्रकार दुश्चिन्ह दीखने लगे ॥१७॥ सब संसार अंधेरेके
 गर जानेसे मभाहीन मतीत होने लगा और कुछ नहीं सूझता
 था और अंधकारसे झाई हुई दश दिशाएँ मालूम ही नहीं होती
 थी ॥१८॥ जैसे कालमेघोंके घिर आने पर अमावास्या की
 रात्रिमें कुछ नहीं दीखता है, ऐसे ही अंधकारसे सूर्यका तिरस्कार
 होने पर अंधकारसे भरा हुआ आकाश शोभायमान नहीं लगता
 था ॥१९॥ उस समय प्रभु श्रीकृष्णने अपनी दोनों भुजाओंसे
 अंधकारका फाड़ कर अपने दिव्य और आकाशकी समान नीले
 शरीरका दर्शन दिया था ॥ २० ॥ उस समय दैत्योंसे हारे
 हुए देवताओंने मेघ और भस्मकी समान आभा वाले और
 मेघती समान (काले) केश वाले तथा तेज और शरीरमें
 कृष्ण पर्वतकी समान चगकते हुए पीताम्बरको धारण करने
 वाले और तपे हुए सुवर्णके भूषण पहरने वाले और धूमके
 अंधकारकी समान शरीरसे मलयकालकी अग्निकी समान
 लहट हुए और आठ पुष्ट कंगों वाले और बगलियोंकी पंक्तिवी
 (समान रवेन) भूषणोंवाले और सुवर्णके बने हुए हाथोंके

शीविपधारिणम् ॥ २४ ॥ शक्तिचित्रं हलोदग्रं शंखचक्रगदा-
धरम् । विष्णुशैलं क्षमामूर्त्तं श्रीवक्त्रः शार्ङ्गधन्विनम् ॥ २५ ॥
हर्यरवरथसंयुक्ते सुपर्ण-वजशोभिते । चन्द्रार्कचक्ररचिते मन्द-
राक्षतान्तरे ॥ २६ ॥ अनन्तरश्चिसयुक्ते ददृशे मेरुकूबरे ।
तारकाचित्रकुसुमे ग्रहनक्षत्रबन्धुरे ॥ २७ ॥ भयेष्वभयदं
व्योम्नि देवा दैत्यपराजिताः । ददृशुस्ते स्थितं देवं दिव्य-
लोकमये रथे ॥ २८ ॥ ते कृताञ्जलयः सर्वे देवाः शक्रपुरोगमाः ।
जयशब्दं पुरस्कृत्य शरण्यं शरणं गताः ॥ २९ ॥ स तेषां ता-
गिरः श्रुत्वा विष्णुर्दयितदेवतः । मनश्चक्रे विनाशाय दानवानां
महामृधे । आकाशे तु स्थितो विष्णुः सोत्तमे पुहपोत्तमः । उवाच
आकार वाले प्रायुधोसे शोभित, चन्द्रमा और सूर्यकी किरणों
से मकाशवान् पर्वतकी समान अचल और मैनसिलकी समान
पीत नीवीबंधन वाले खड्गसे शोभित हाथ वाले और बाण रूपी
सर्पको धारण करनेवाले शक्तिरूपी चित्रवाले, हलसे उदग्र शंख
चक्र क्षमारूपी मूल वाले वक्त्रस्थल वाले श्रीवत्सके चिन्हसे चिन्हित
शार्ङ्ग धनुषधारी दिव्य भयमें अभयदान देने वाले पर्वतकी समान
अटल विष्णुको देवताओंने हरे वर्ण वाले घोड़ोंसे जुते हुए और
गरुड़की ध्वजा जिसमें फहरा रही है ऐसे और सूर्य चन्द्ररूपी
पहिये वाले मन्दराचलरूपी अन्न (धुरे) वाले अनन्त लगामों
वाले मेरुरूप कूबर वाले तारे रूपी चित्र विचित्र कुसुम वाले और
ग्रह नक्षत्ररूपी बंधनों वाले दिव्यलोकमय रथमें बैठे हुए देखा
॥ २१-२८ ॥ उस समय इन्द्र आदि देवताओंने जय जय शब्द
किया और हाथ जोड़ कर शरण देने वाले विष्णु भगवान्की
शरणगी ॥ २९ ॥ विष्णुको देवता मिय थे अत एव उन्होंने
देवताओंकी उस बाणीको सुनकर अपने मनमें महायुद्धमें
दानवोंके नाश करनेका विचार किया ॥ ३० ॥ तदनन्तर

देवताः सर्वाः सप्रतिज्ञमिदं वचः ॥ ३१ ॥ शान्तिं भजत भद्रं वी-
 मा भैष्ट मरुतां गणाः । जिता मे दानवाः सर्वे त्रैलोक्यं प्रति-
 गृह्यताम् ॥ ३२ ॥ ते तस्य सत्यसन्धस्य विष्णोर्वाक्येन तोषिताः ।
 देवाः प्रीतिं परां जग्मुः प्राप्येवामृतमुत्थितम् ॥ ३३ ॥ ततस्तमः
 संहियते विनेशुश्च बलाहकाः । पवनुश्च शिवा वाताः प्रसन्नाश्च
 दिशो दश ॥ ३४ ॥ सुभ्राणि च ज्योतीषि चन्द्रं चक्रुः प्रदक्षि-
 णम् । दीप्तिमन्ति च तेजांसि चक्रुर्कं प्रदक्षिणम् ॥ ३५ ॥ नः
 विग्रहं ग्रहाश्चक्रुः प्रसन्नाश्चापि सिन्धवः । नीरजस्कावभुर्मागा-
 नाकपागादयस्त्रयः ॥ ३६ ॥ अथार्धमूहुः सरितो नापि चक्षुभि-
 रेर्ज्वावाः । आसंश्छुर्भानीन्द्रियाणि नराणांमन्तरात्पु ॥ ३७ ॥
 महर्षयो वीतशोका वेदानुच्चैरधीयत । यज्ञेषु च हविः स्वादु-
 श्रेष्ठ आकाशमे वैठे हुए पुरुषोमै उत्तम श्रीकृष्णने सब देवताओं
 से प्रतिज्ञापूर्वक यह बात कही कि— ॥ ३१ ॥ हे देवताओं !
 तुम्हारा कल्याण हे अब तुम शान्तिका उपभोग करो (घबड़ाओ
 मत) मैं सब दानवोंको जीतता हूँ, तुम त्रिलोकी पर अधिकार
 करो ॥ ३२ ॥ सत्य प्रतिज्ञा करने वाले विष्णुके वाक्यसे देवता-
 ऐसे प्रसन्न हुए कि— मानो उनको अमृत मिल गया ॥ ३३ ॥
 उस समय अन्धकार दूर होगया, मेघ विलीन दौगए सुखदायक
 पवन बहने लगा और दशोंदिशाएँ निर्मल होगई ॥ ३४ ॥
 सुन्दर मभा वाले नक्षत्र चन्द्रमांकी प्रदक्षिणा करने लगे और
 प्रकाशवान् तेज वाले ग्रह सूर्यकी प्रदक्षिणा करने लगे ॥ ३५ ॥
 ग्रहोंने आपसमें टकराना छोड़ दिया और नदियोंका जल निर्मल
 होगया तथा (देवान् पितृमान् और मोक्षमार्गनामक) देव-
 लोकाके तीनों मार्ग भी रजरहित होगये ॥ ३६ ॥ नदियें ठीक
 रीतिसे बहने लगीं और समुद्रोंका जुन्ध होना बन्द होगया और
 मनुष्योंकी इन्द्रियोंको अन्तरात्मा शुभकर्ममें लगाने लगी ॥ ३७ ॥

शिवमरनाति पावकः ॥ ३८ ॥ प्रवृत्तधर्माः संवृत्ता लोका मुदित-
मानसाः । मीत्या परमया युक्ता देवदेवस्य भूपते । विष्णोः
सत्यप्रतिज्ञस्य श्रुत्वाऽरिनिधने गिरम् ॥ ३९ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

। ५ आश्चर्यं द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥

वैशम्पायन उवाच । ततो भयं विष्णुमयं श्रुत्वा दैतेयदानवाः।
उद्योगं विपुलं चक्रुर्बुद्धय युधि दुर्जयाः ॥ १ ॥ मयस्तु काचन-
मयं त्रिनन्दातरमव्ययम् । चतुरचक्रं विक्रमन्तं सुकल्पितमहा-
युधम् ॥ २ ॥ किंकिणीजालनिर्घोषं द्वीपिचर्मपरिष्कृतम् । खचितं
रत्नजालैश्च हेमजालैश्च भूपितम् । इन्द्रं रथवरोदग्रं सूपस्थोनमगोप-
मम् । ईहामृगगणाकीर्णं पत्तिभिश्च विराजितम् । दिव्यास्त्रतूणी-
रचरं पयोधरनिनादितम् ॥ ४ ॥ गदापरिघसंपूर्णं मूर्तिमन्तमिषार्ण-

महर्षिपोकै शोक दूर होगए, उच्चस्वरसे वेदपाठ होने लगा और
अग्नि भी यज्ञोंमें पवित्र और स्वादु हविका भक्षण करनेलगे ३८
हे भूपते ! सत्य प्रतिज्ञा करने वाले विष्णुके शत्रुनाश करने वाले
वचनको सुन कर प्राणी अपने मनमें प्रसन्न होकर परमप्रीतिसे
यज्ञ आदि कर्म करनेमें प्रवृत्त होगए ॥ ३९ ॥ चयालीसवाँ अध्याय
समाप्त ॥ ४२ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि—तदनन्तर दानवोंने सुना, कि—
खास विष्णुसे ही हमारे ऊपर आपत्ति आकर पड़ेगी, तब युद्धमें
दुर्जय दितिके पुत्र दानवोंने युद्धका बड़ा भारी आयोजन
किया १ तदनन्तर मय दानव सूर्य जैसे मेरु पर्वत पर आरूढ़
होता है तिस प्रकार सुवर्णके बने हुए चारह हाथ लम्बे अव्यय
रथ पर सवार होगया, वह रथ चार पहियों वाला था, जल
अग्नि आदि विषम स्थानोंमें भी चला जाता था उसमें बड़े बड़े
आयुध यथास्थान रखे हुए थे और उसमें छोटी २ घण्टियें बज

वम् । हेमकेयूरवलयं स्वर्णमण्डलकूबरम् ॥ ५ ॥ सपताकाध्वजो-
दग्रं सादित्यमिव मन्दरम् । गजेन्द्रांभोजसदृशं लम्बकेसरवर्ष-
सम् ॥ ६ ॥ युक्तमृत्तसहस्रेण सहस्रांबुदनादितम् । दीप्तमाकाशगं
दिव्यं रथं पररथारुजम् ॥ ७ ॥ अर्धतिष्ठद्रणाकांक्षी मेहं दीप्त-
मिवांशुमान् । तारस्तु क्रोशविस्तारमायसं वायसध्वजम् ॥ ८ ॥
शैलोत्करसपाकीर्णं नीलांजनचयोपमम् । काललोहाष्टचरणं
लोहेपायुगकूबरम् । तिमिरांगारकिरणं गर्जन्तमिव तोषदम् ॥ ९ ॥
लोहजालेन महता सगवाक्षेण दंशितम् । आयसैः परिधैः कीर्णं
क्षेपणीयैस्तथाऽश्रमभिः ॥ १० ॥ पासैः पाशैश्च विततैरवसवतैश्च

रहीं थीं और भेड़ियेका चमड़ा मढा हुआ था और उसमें सुवर्ण
और रत्नोंका काम होरहा था, उसके धुरे वड़े अच्छे थे और
वह बढ़िया २ रथोंमें भी श्रेष्ठ था और उसमें पशु पत्तियोंके चित्र
वने हुए थे और दिव्य अस्त्रोंके भाये रखे हुए थे और वह
रथ मेवकी समान खड़ २ करता था और उसमें गदा और
परिच भर रहे थे इस कारण वह मूर्तिमान् समुद्रसा दीखता था
उसमें सुवर्णके केयूर और वलयोंकी समान बन्धन लग रहे थे
और उसमें सुवर्णका केयूर लगरहा था और उसकी ध्वजा और
पताका इगनी ऊँचीं लग रही थी कि-वह सूर्य वाले मन्दराचल
की समान गतीत होता था वह रथ हाथीकी सूँडकी
समान था और भल्लूक वर्णवाले सिंहकी समान शीघ्रगामी
होनेसे अतितेजस्वी लगता था, उसमें सीं रीझ जुतेहुए थे और
वह सीं मेवोंकी समान गर्जना था और वह रथ आकाशमें ऊपर
कां चला गया था तथा वह रथ दूसरोंके रथोंको तोड़ डालने
वाला था । और बार नामका असुर लोहेके वने हुए एक कोस
लम्बे रथमें बैठा था उस पर काँपकी ध्वजा लग रही थी और
उग्रमें पत्थर भरे हुए थे और वह कृष्णवर्णके अश्वनके ढेरकी

मुद्गरैः । शोभितं त्रासनीयैश्च तोमरैः सपरश्वधैः ॥ ११ ॥
 उच्यन्तं द्विपतां हेतो द्वितीयमिव मन्दरम् । युक्तं खरसहस्रेण
 सोऽध्यारोहद्रथोत्तमम् ॥ १२ ॥ विरोचनस्तु संकुद्रो गदापाणि-
 रवस्थितः । प्रमुखे तस्य सैन्यस्य दीप्तशृङ्ग इवाचलः ॥ १३ ॥
 युक्तं हयसहस्रेण हयग्रीवस्तु दानवः । स्पन्दनं वाहयामास स-
 प्तनानीकमर्दनम् ॥ १४ ॥ व्याघ्रं बहुसाहस्रं धनुर्विस्फारयम्
 महत् । वराहः प्रमुखे तस्यौ सावरोह इवाचलः ॥ १५ ॥ खरस्तु
 चित्तरन् दर्पान्नेत्राभ्यां रोपजं जलम् । स्फुरदन्तौष्ठवदनः संग्रामं
 सोऽभ्यर्कान्त ॥ १६ ॥ त्वष्टा त्वष्टादशहयं यानमास्थाय
 समान था उसमें काले लोहेके आठ पहिये लग रहे थे और
 उसमें लोहेकी ईपा युग और कूबर लग रहा था और वह काले
 कोयलेकी समान किरण वाला था और गर्जते हुए घादलकी
 समान था और उसमें लोहेकी जालियोंके बडे २ भरोखे बन
 रहे थे उस रथमें लोहेके परिघ गोफनी और पत्थर भरे हुए थे
 तथा उसमें पास पाश फैले हुए और तेल पिलाये हुए मुद्गर
 भरे रहे थे तथा वह तोमर और फरसांसे शोभा पारहा था
 और वह शत्रुओंका नाश करनेके लिये दूसरे मन्दराचलकी
 समान खड़ा हुआ था, और उसमें सहस्र गधे जुन रहे थे ऐसे
 रथश्रेष्ठ पर तार चढ़ गया २—१२ विरोचन नामक दैत्य क्रोध
 में भर कर सेनाके सामने हाथमें गदा ले मदीप्त पर्वतकी समान
 अचल खड़ा होगया १३ हयग्रीव नामक दानव शत्रुओंकी सेना
 का मर्दन करने वाले सहस्र घोडोंसे जुते हुए रथमें बैठ कर
 चलने लगा १४ वराह नामक असुर जटा वाले न्यग्रोध वृक्षकी
 समान अपने सैकड़ों हाथ लम्बे धनुषको तान कर खड़ा
 होगया १५ खर दैत्यके तो दर्पके कारण नेत्रोंसे रोपभरा जल
 निकलने लगा और वह दाँत ओठ और मुखको काँस कर संग्राम

दानवः । व्यूहितो दानवैर्व्यूहः परिचक्राम वीर्यवान् ॥ १७ ॥
 विभचित्तिमुतः श्वेतः श्वेतकुण्डलभूषणः । श्वेतशैलप्रतीकाशो
 युद्धायाभिमुखः स्थितः ॥ १८ ॥ अरिष्टो - वृत्तिपुत्रस्तु वरिष्ठो-
 ऽद्रिशिलायुधः । युद्धायातिष्ठदायस्तो धराधर इचापरः ॥ १९ ॥
 किशोरस्त्वतिसंहर्षान् किशोर इव चोदितः । अभवद् दैत्यसैन्यस्य
 मध्ये रविरिवोदितः ॥ २० ॥ लम्बस्तु लंबमेघाभः प्रलंबांबर-
 भूषणः । दैत्यव्यूहगतो भान्ति सनीहार इत्राशुमान् ॥ २१ ॥
 स्वर्भानुर्वक्रयोधी तु दशनौष्टेज्जलायुधः । हसंस्तिष्ठति दैत्यानां
 ममुखे स महाग्रहः ॥ २२ ॥ अन्ये ह्यगता भान्ति नागस्कन्ध-
 गताः परे । सिंहव्याघ्रगताश्चान्ये वराहर्त्तगताः परे ॥ २३ ॥
 केचिन् खरोष्ट्रयातारः केचित्तोयदवाहनाः । नानाप्रन्निगताश्चान्ये

करना चाहने लगा १६ और वीर्यवान् त्वष्टा नामक दानव अठारह घोड़ोंसे जुते हुए रथमें बैठ कर दानवोंके बनाये हुए व्यूहमें घूमने लगा १७ श्वेत कुण्डलोंको पहिरने वाला विभचित्ति का पुत्र श्वेत श्वेतपर्वतकी समान युद्धमें आकर डट गया १८ वज्रिका पुत्र अरिष्ट जो पर्वतके पत्थरोंसे युद्ध करनेमें श्रेष्ठ था वह दूसरे पर्वतकी समान युद्ध करनेके लिये डट गया १९ किशोर नामक दैत्य हर्षमें भर किशोर (अरवशावक) की समान हर्षमें भर कर दैत्योंकी सेनाके मध्यमें उदय होते हुए सूर्यकी समान खड़ा होगया २० लम्बे मेघकी समान लम्बनागक दानव लम्बे वस्त्रके आभूषणको धारण करके दैत्योंके व्यूहमें खड़ा हुआ राहुग्रह सूर्यसा दीखना था ॥ २१ ॥ और स्वर्भानु नामका राक्षस जो कुटिलता से युद्ध करने वाला था वह महाग्रह राक्षसोंकी सेनाके मुहाने पर हंसना हुआ खड़ा होगया २२ इनके अतिरिक्त इन दानवोंमें बहुतसे दानव घुड़सवार हाथीसवार सिंहसवार व्याघ्रसवार वराहसवार और रीढ़ पर

केचित् पवनवाहनाः ॥२४॥ पक्षगश्चापरे दैत्या भीषणा विकृतान-
ननाः । एरुपादद्विपादारच नर्दन्तो युद्धकाञ्चिणः ॥२५॥ प्रचवेड-
माना बहवः स्फोटयन्तरन ते भुजान् । दम्पशार्दूलनिर्घोषा नेदु
र्दानवपुङ्गवाः ॥ २६ ॥ ते गदापरिघेस्त्रीर्षनुर्व्यायामशालिनः ।
वाहुभिः परिघाकारैस्तर्जयन्ति स्म देवताः ॥२७॥ मासैः पाशैश्च
खड्गैश्च तोमरांकुशादृशैः । चिक्रीडुस्ते शतधनीभिः शतधारैश्च
मुद्गरैः ॥ २८ ॥ गण्डशैलैश्च शलैश्च परिघैश्चोत्तमायुधैः ।
चक्रैश्च दैत्यप्रवराश्चक्रुरानन्दितं बलम् ॥ २९ ॥ एवं तद्दानवं
सैन्यं सर्वं युद्धबलोत्कटम् । देवताभिमुखं तस्थौ मेघानीकमिवो-
त्थितम् ॥ ३० ॥ तदद्भुतं दैत्यसहस्रगाढं वाय्वग्नितोयांबुदशैल-

सवार होकर शोभा पारहे थे ॥ २३ ॥ कोई दानव गधे और
जेंट पर चढ़ कर जारहे थे और कोई मेघ पर चढ़ कर जारहे
थे और बहुतसे बहुतसे पक्षियों पर बैठे हुए थे और बहुतसे
पवनकी समान वेगसे जारहे थे ॥ २४ ॥ और बहुतसे
भीषण मुँव वाले तथा एरु पैर दो पैर वाले दैत्य युद्ध
करनेकी इच्छासे पैदल ही चल रहे थे ॥ २५ ॥ कोई कोई
पुङ्गव अपनी भुजाओं पर थपेड़ा मारते हुए यमण्डमें भर कर
दहाड़ने वाले सिंहकी समान दहाड़ने लगे ॥ २६ ॥ वे धनुषका
व्यायाम करने वाले अपनी परिघको समान भुजाओंसे उग्र परिघ
और गदाओंको घुमा कर देवताओंको धमकाने लगे ॥ २७ ॥
वे मास पाश खड्ग तोमर अंकुश पट्टिश शतघ्नी धारदार मुद्गरोंसे
खेलने लगे ॥ २८ ॥ और दैत्य लोग गण्डशैल शल उत्तम परिघ
आयु और चक्रोंसे अपनी सेनाको आनन्दित करने लगे ॥ २९ ॥
जैसे मेघ उठता है इसी प्रकार वह युद्ध करनेकी सब सामग्नि-
योंसे उत्कट राक्षसोंकी सेना देवताओंके सामने डट गई ॥ ३० ॥
उस समय वह सहस्रों दैत्योंसे भरी हुई सेना रणका अभ्युदय

कल्पम् । वलं रणोवाभ्युदयाव हीर्णं युयुत्सयोन्मत्तमिवावभासे ३ १
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४३॥

वैशम्पायन उवाच । श्रुनस्ते दैत्यसैन्यस्य विस्तरस्तात विग्रहे ।
सुराणां सर्वसैन्यस्य विस्तरं वैष्णवं शृणु ॥ १ ॥ आदित्या
वसवो रुद्रा अश्विनौ च महाबलौ । सवलाः सानुगारश्चैव संनह्यंत
यथाबलम् ॥२॥ पुरुहूतस्तु पुरतो लोकपालः सहस्रदक् । ग्रामणीः
सर्वदेवानामारुरोह सुरद्विपम् ॥ ३ ॥ सव्ये चास्य रथः पार्श्वे
पत्तिप्रवरवेगवान् । सुषारुवक्रचरणो हेमवज्रारिष्कृतः ॥ ४ ॥
देवगन्धर्वरत्नौघोरजुघातः सहस्रशः । दीप्तिमद्भिः सदस्यैश्च ब्रह्मर्षि-
भिरण्डुतः ॥५॥ वज्रविष्फूर्जिनोद्भूतैर्विशुद्धिन्द्रायुधान्वितैः । सुप्तो
बलाइकगणैः कामगैरिव पर्वणैः ॥ ६ ॥ समारूढः स भगवान्

करनेके लिये लड़नेकी इच्छा करती हुई उन्मत्तसी दीख रही
थी ॥ ३१ ॥ तैतालीसवों अध्यक्ष समाप्त ॥४३॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि हे तात ! तुमने युद्धके समयकी
दैत्यसेनाका विस्तार सुनलिया अब तुम विष्णुकी ओरके देवता-
ओंकी सेनाओंके विस्तारको सुनो ॥ १ ॥ देवताओंकी सेनामें
(गारुड) आदित्य (आठ)वसु (ग्यारह) रुद्र महाबली अश्विनी
कुमार ये अपनी सेनाको लेकर डट गए ॥२॥ सब देवताओंका
नेता सहस्र नेत्रोंवाला लोरुपाल इन्द्र ऐरावत हाथी पर सवार
होगया इन्द्रके सव्य पार्श्व में गरुडकी समान वेग से चलने
वाला सुन्दर चक्ररूपी चरणों वाला और सुवर्णके वज्रसे
शोभायमान रथ चल रहा था उसके पीछे सहस्रों दीप्तिमान् ब्रह्मर्षि
देवता गन्धर्व और गन्धर्व चलते थे और उस रथके पीछे वज्रके
प्रयत्नसे कद्रोंसे हुए विशुद्ध और इन्द्रायुध (इन्द्रधनुष) वाले
मेघ बल रहे थे ये इच्छानुसार चलने वाले पर्वणोंसे प्रतीत होते

पर्येति मघवा गजम् । इति रानेषु गायन्ति विषाः सोममखे
स्थिनाः ॥ ७ ॥ स्वर्गे शक्रानुयानेषु देवतूर्यनिनादिषु । इन्द्रं
समुपवृत्त्यन्ति शतशो ह्यप्सरोगणाः ॥ ८ ॥ केतुना वंशजातेन
राजपानो यथा रविः । युक्तो हरिसहस्रेण मनोमाहतरंहसा ६
स सगन्दनवरो भाति युक्तो मानलिना तदा । कृत्स्नः परिवृतो
मेकभस्तिरस्यैव तेजसा ॥ १० ॥ यमस्तु दण्डमुग्रम्ब कालयुक्तं
च मुहुरम् । तस्थो सुरगणानीके दैत्यान्नादेन भीषणम् ॥ ११ ॥
चतुर्भिः सागरैर्गुप्तो लेलिहानैश्च पन्नगीः । शंखमुक्तांगदधरो
विभ्रतो मगं वपुः ॥ १२ ॥ कालपाशं सगावि य इयैः शशि-
करोपमैः । वाय्वीरितजलोद्धारैः कुर्वन्लीलाः सहस्रशः ॥ १३ ॥
पाण्डुरोद्भूतवसनः प्रवालहचिरागदः । मणिरयापोत्तमवपुर्हारि-
थे ॥ ६ ॥ सोमपद्मोंमें इवि स्थापन करने वाले मण्डपोंमें ब्राह्मण
जिसकी स्तुति करने है वह भगवान् इन्द्र हाथी पर चढ़ कर चल
रहे थे ५. सर्गमें चलते समय दिव्य तूर्न वज्रते थे और अप्सराये
इन्द्रके चारों ओर नाचती थीं ॥ ८ ॥ सहस्र घोड़ोंसे जुताहुआ
मन और माहककी समान वेगवान् केतुसे वह रथ उदय होते
हुए सूर्यसा दीखता था ॥ ९ ॥ जिसके ऊपर मावलि बैठा हुआ
था ऐसा वह रथ सूर्यके तेजसे घिरे हुए, पूर्ण मेरुपर्वतसा दीखता
था ॥ १० ॥ यमराज मरणप्रद काल दण्डने धारण कर अपने
नादसे दैत्योंको भयभीत करते हुए देवताओंकी सेनाके मुहाने
पर डट गये ॥ ११ ॥ चार सामरोंसे घिरा हुआ और जीव
लपलपाते हुए सर्पोंसे रक्षित शंख और मुक्ताओंके वाजून्द
वाला जलमय शरीरको धारण करने वाला वरुण कालपाशको
उठा कर अपनी चन्द्रमाकी किरणोंकी समान अश्रवोंसे और
वायुमे फेंके जाने वाले जलके उद्धारोंसे क्रीड़ासी कर रहा था
वह पाण्डुर बणके उड़ते हुए बस्त्रोंको पहिर रहा था और उस

भारार्पितोदरः ॥१४॥ वरुणः पाशभृन्मध्ये देवानीकस्य तस्थि-
वान् । युद्धवेलामभिलषन् भिन्नवेल इवार्णवः ॥ १५ ॥ यत्त-
रात्तससैन्येन गुह्यकानां गणैरपि । मणिरयामोत्तमवपुः कुबेरो
नरवाहनः ॥ १६ ॥ युक्तरच शङ्खपद्माभ्यां निधीनामधिपः प्रभुः ।
राजराजेश्वरः श्रीमान् गदापाणिरदृश्यतः ॥१७॥ विमानयोधी
धनदो विमाने पुष्पके स्थितः । स राजराजः शुशुभे युद्धार्थी
नरवाहनः । प्रेक्ष्यमाणः शिवसखः साक्षादिव शिवः स्वयम् १८
पूर्वं पत्नं सहस्रात्तः पितुराजस्तु दक्षिणम् । वरुणः पश्चिमं पत्न-
मुत्तरं नरवाहनः ॥१९॥ चतुर्षु युक्ताश्चत्वरौ लोकपाला बलो-
के मूँगोका मनोहर वाज्रवन्द वंश रहा था मणिके कारण उसका
श्याम शरीर अच्छा लगता था और वरुण उदरपरहार पड़नेसे
भारीसा प्रतीत होरहा था ऐसे वरुण देवताओंकी सेनाके बीच
में युद्ध करनेके अवसरको चाहते हुए किनारेको तोड़ डालने
वाले समुद्रकी समान डट गए ॥१२-१५॥ नीलमणिकी समान
शरीर वाले निधियोंके स्वामी नरवाहन राजराजेश्वर श्रीमान् कुबेर
जो शङ्ख और पद्म नामकी निधियोंके स्वामी थे वे हाथमें गदा
लिये हुए दिखाई दिये उनके चारों ओर यत्न रात्तसोंकी सेना
और गुह्यकोंके गण फिर रहे थे ॥ १६—१७ ॥ पुष्पक विमान
में बैठे हुए धनद विमानमें बैठकर युद्ध करने वाले थे और वह
शिवके मित्र युद्ध करने वाले नरवाहन कुबेर युद्ध करनेके लिये
चारों ओर देखते समय साक्षात् शिव प्रतीत होते थे ॥ १८ ॥
उस देवसेनामें पूर्वदिशाके पत्तके सहस्रात्त इन्द्रने सम्हाला था
और यमराजने दक्षिणदिशाकी ओरसे उसको सम्हाला था और
पश्चिम दिशाके पत्तकी वरुणदेवने रत्ताकी थी भी और कुबेर
उत्तरदिशाकी ओर डट कर खड़े होगए ॥१९॥ इस प्रकार चार
बलमें उत्कट लोकपाल अपनी २ चारों दिशाओंमें देवताओंकी

त्कटाः । स्वासु दिक्ष्वभ्यरत्तन् वी तस्य देववत्तस्य ह ॥ २० ॥
 सूर्यः सप्तारव्युक्तेन रथेनावरगाभिना । त्रिपा जाञ्जल्यमानेन
 दीप्यमानैश्च रश्मिभिः ॥ २१ ॥ उदेयास्तमयं चक्रे मेढर्पन्त-
 गाभिना । त्रिदिक्ष्वारचक्रेण तपता लोकमव्ययम् ॥ २२ ॥ सहस्र-
 रश्मियुक्तेन भ्राजमानः स्वतेजसा । चचार मध्ये देवानां द्वादशात्मा
 दिक्षेश्वरः ॥ २३ ॥ सोमः श्वेतद्वयैर्भाति स्पन्दने शीतरश्मिनाम् ।
 हिमनोपप्रपूर्णाभिर्भारादाब्हादयञ्जगत् ॥ २४ ॥ तमृत्तयोगः शुगतं
 शिशिरांशुं द्विजेश्वरम् । जगच्छायांफिततनुं नैशस्य तमसः
 क्षयम् ॥ २५ ॥ ज्योतिषामीश्वरं ज्योम्नि रसानां रसनं प्रथुम् ।
 श्रीर्गंधीनां परित्राणं निधानममृतस्य च ॥ २६ ॥ जगतः प्रथमं
 भोगं सीम्पं शीतमयं रसम् । ददृशुर्दानवाः सोमं हिमप्रहरणं
 की सेनाकीं रक्षा करने लगे ॥ २० ॥ सूर्य आकाशगामी सान
 घोड़ोंसे जुते हुए रथमें बैठे थे, यह रथ लक्ष्मीसे दमक रहा था
 और उस रथकी लगामें भी दमक रहीं थी ऐसे मेढर्पन्त तक
 जाने वाले रथमें बैठ कर स्वर्गमें सूर्यने चरैटीकी समान घूमकर
 अपने रथको उदय और अस्तमय बना दिया था ॥ २१-२२ ॥
 चारह आत्मा वाले दिनेश्वर-सूर्य अपने सहस्र किरणों वाले तेज
 से दमकते हुए देवताओंमें घूमने लगे ॥ २३ ॥ शीतल किरणों
 वाले चन्द्रमा श्वेत घोड़ोंसे बड़ी शोभा पारये थे और पाले तथा
 जलसे भरी हुई किरणोंसे जगत्में आनन्द दे रहे थे ॥ २४ ॥
 जिनके पीछे २ नक्षत्र चलरहे थे और जिनकी किरणें शीतल हैं
 और जो ब्राह्मणोंके ईश्वर हैं और जिनका शरीर जगत्की व्याप्य
 से अंकित रहता है और जो रात्रिमें अंधकारका क्षय करनेवाले हैं
 जो आकाशके नक्षत्रोंके अधिपति हैं और जो रसोंके आश्रय हैं
 और जो आपधियोंके रक्षक हैं और अमृतके पात्र हैं ॥ २६ ॥
 और जो जगत्के (अग्नीषोमात्मक भागमेंसे) प्रथम (मुख्य

स्थितम् ॥ २७ ॥ यः प्राणः सर्वभूतानां पञ्चधा भिद्यते नृषु ।
सप्तस्कन्धगतो लोकांस्त्रीन् दधार चराचरान् ॥ २८ ॥ यमाहु-
रग्नेर्यन्तारं सर्वप्रभवपीश्वरम् । सप्तस्वरगता यस्य योनिर्गति
रुदीर्यते ॥ २९ ॥ यं वदन्त्युत्तमं भूतं यं वदन्त्यशरीरिणम् । यमा-
हुराकाशगमं शीघ्रं शब्दयोनिजम् ॥ ३० ॥ स वायुः सर्वः

अन्नात्मक) भाग हैं (अत एव) जो सौम्य (सोमरूप) हैं
(तथा) शीतलतामय रस हैं ऐसे चन्द्रमाको दैत्योंने हिमका
आयुध ग्रहण कर खड़े हुए देखा ॥ २७ ॥ (चन्द्रमाका जो रूप
वर्णन किया है उसमें जगच्छायांकित शरीरका तात्पर्य यह है,
कि चन्द्रमाकी किरणें दो भागोंमें विभक्त हैं उनसे जलमय चन्द्र-
मण्डल भासता है इनमें जो अभीमुख किरणें हैं वे पृथ्वीमें आकर
पृथ्वी पर स्थित महामणि आदिके तेजसे टकरा कर फिर ऊपर
को उठ कर चन्द्रमण्डलमेंको जाती हैं वे पार्थिव नीलिमासे रञ्जित
किरणें चन्द्रमण्डलको भी नीला ही दिखाती हैं अत एव चन्द्रमा
का जगच्छायाङ्कितशरीरत्व ठीक ही है और जो दूसरी पहिले चन्द्र-
मण्डलमें जाकर फिर पृथ्वी पर विचरण करती हैं उनके द्वारा
चन्द्रमाके भास्वर प्रकाशरूपसे निशाका अंधकार लीन होजाता
है) जो अपने(आवह पवह आदि आकाशमें वर्तमान) सात स्कंधों
से चराचर त्रिलोकीको धारण करता है और जो मनुष्योंमें
तथा सब भूतों में (प्राण अपान आदि) पाँच रूपोंमें रहता है २८
जिस को सबका उत्पत्ति स्थान ईश्वर और अग्नि का यन्त्रा
कहते हैं और जिसका सात स्वरोंमें पहुँचना गायन कहलाता
है २९ जिस को उत्तम भूत कहते हैं और जिस को आकाशमें
अशरीरी कहते हैं और जिसको आकाशमें विचरण करने वाला
कहते हैं और जिसको शीघ्र चलने वाला तथा शब्दयोनि
(आकाश) से उत्पन्न करते हैं ॥ ३० ॥ स वायु की आयु

भूतायुद्धभूतः स्वेन तेजसा । सर्वो मन्वथपन् दैत्यान् प्रतिल्लोमः
सतोपदः ॥ ३१ ॥ मरुतो देवगन्धर्वा विद्याधरगणैः सह । चिकी-
डुरसिभिः शुभ्रैर्निर्मुक्तैरिव पन्नगैः ॥ ३२ ॥ सृजन्तः सर्पपतय-
स्तीव्रं रोषमय विषम् । शरभूताः सुरेन्द्राणां चेरुन्यात्तमुखा
दिवि ॥ ३३ ॥ पर्वतास्तु शिलाशृङ्गैः शतशाखैरन पादगैः । उफ-
न्मधुः सुरगणान् महर्तुं दानवं बलम् ॥ ३४ ॥ यः स देवो हृषी-
केशः पद्मनाभस्त्रिविक्रमः । कृष्णवर्त्म युगान्ताभो विश्वस्य
जगतः प्रभुः ॥ ३५ ॥ समुद्रयोनिर्मधुदा ह्वयभुक् क्रतुसत्कृतः ।
भूरापो व्योमभूतात्मा समः शान्तिकरोऽरिहा ॥ ३६ ॥ जगद्यो-
निर्जगद्बीजो जगद्गुहकदारधीः । सार्कमग्निमित्तेद्यन्तमुद्यम्योत्तम-
रूप वह वायु अपने तेजसे पचल हो पेषके साथ प्रतिल्लोम गति
से वह कर राक्षसोंको व्यथित करने लगा ॥ ३१ ॥ महद्व्रण
देवता गन्धर्व और विद्याधरोंके साथ बिना केंचुलीके सर्पोंकी
समान चमचमाती हुई तलवारोंसे क्रीड़ा करने लगे ३२ और
सर्पपति सुरेन्द्रोंके बाण बन कर आने मुखको फैला तीव्र रोष-
मय विषसे उगलते हुए घूमने लगे ३३ और पर्वत भी दानवों
की सेनाको मारनेके लिये शिलाओंको और सेंकड़ों शाखाओं
वाले वृक्षोंको लेकर देवताओंके पास आगए ३४ जो देवता हृषी-
केश नामसे प्रसिद्ध है पद्मनाभ और त्रिविक्रम कहलाते हैं और
जिनकी आभा अग्निकी समान हैं और जो सकल संसारके प्रभु
हैं ३५ और जो समुद्रमें रहते हैं तथा जिन्होंने मधु दैत्यका नाश
किया है जो ह्वयका भक्षण करने वाले हैं और यज्ञोंमें जिनका
सत्कार किया जाता है और जो पृथ्वी जल और आकाशके
आत्मा हैं, सर्वत्र समभाव रखते हैं, शान्ति फैलाने वाले हैं और
शत्रुनाशक हैं ३६ जो जगत्के योनि और जगत्के बीज हैं अर्थात्
निमित्त और उपादान कारण हैं और जो महाबुद्धि जगत्के गुरु

तेजसम् ॥ ३७ ॥ अरिद्रममरानीके चक्रं चक्रगदाधरः । सपरी
 वेपगुद्यन्तं सचित्तुर्मण्डल यथा ॥ ३८ ॥ सव्येनालंघ्य महती
 सर्वासुरविनाशिनीम् । करेण काली वपुषा शत्रुकालमदां गदाम् ।
 शोणैर्भुजैः प्रदीप्तानि भुजगारिध्वजः प्रभुः ॥ ३९ ॥ दधारायुध-
 जालानि शार्ङ्गादीनि महायशाः । स कश्यपः स्यात्मभवं द्विज
 भुजगभोजनम् ॥ ४० ॥ पवनाधिकसम्पातं गगनक्षोभणं स्वगम् ।
 भुजगेन्द्रेण वदने निविष्टेन विराजितम् ॥ ४१ ॥ अमृतारम्भ-
 निर्युक्तं मन्दराद्रिमिथोच्छ्रितम् । देवासुरविमर्देषु शतशो दृष्टविक्र-
 मम् ॥ ४२ ॥ महद्रेष्णामृतस्वार्थे वज्रेण कृतलक्षणम् । शिखिनं
 चूडिनं चैव तप्तकुण्डलभूषणम् । विचित्रपत्तवसनं धातुमन्तमिवा-

हे ३७ वह अपने सव्य हाथमें सकल असुरोंका नाश करनेवाली
 और शत्रुको कालके अरीन करने वाली काली गदाको (लेकर)
 आये थे और वह परवेपके साथ उदय होते हुए सूर्यमण्डलको
 ही पकड़ कर लाये हों इस प्रकार सूर्य और अग्निकी समान
 उदय होते हुए उत्तम तेज वाले शत्रुओंका नाश करने वाले
 चक्रको लेकर आये थे गरुड़की भ्रजा वाले महायशस्वी प्रभु
 वकी भुजाओंमें शार्ङ्ग आदि आयुधोंको धारण कर रहे थे, और
 करणपुत्र विष्णु अपनेसे उत्पन्न हुए सपोंका भक्षण करनेवाले
 गरुड़ पर (सवार थे) ३८-४० वह गरुड़, पवनसे भी अधिक वेग
 से गिरता था आकाशमें खलभली मचा देता था और उसके
 सुवर्णमें सर्प दार रहा था ४१ गरुड़ उस समय अमृत निकालनेके
 समय नियुक्त किये हुए मन्दराचलकी समान ऊँचे दीख रहे थे
 और उन्होंने महतसे देवता और असुरोंके संग्राममें अपना पराक्रम
 दिखाया था ४२ जब वह अमृत लेने गए थे उस समय इन्द्रने
 उनके वज्र मारा था, वह चिन्ह इस समय दीख रहा था,, वह
 शिखा वाले थे और तपे हुए सुवर्णरु कुण्डलको पहन रहे थे

चलम् ॥ ४३ ॥ स्फूर्तिक्रोडावलम्बेन शीर्ताशुसमतेजसा । भोगि-
भोगावसक्तेन मणिरत्नेन भास्यता ॥ ४४ ॥ पक्षाभ्यां चारु-
पत्राभ्यामावृत्य दिवि लीलया । युगान्ते सेन्द्रचापाभ्यां तोयदा-
भ्यागिचाम्बरम् ॥ ४५ ॥ नीलललोदितपीनाभिः पताकाभिरन्त-
कृतम् । केतुवेपप्रतिच्छन्नं महाकायनिकेतनम् ॥ ४६ ॥ अरुणा-
वरजं श्रीमानारुह्य समरे हरिः सुवर्णं स्वेन वपुषा सुपर्णं खेचरो
जनम् ॥ ४७ ॥ तमन्वयुर्देवगणा मुनयश्च तपोधनाः । गीर्भिः
परममन्त्राभिस्तुष्टुवुश्च गदाधरम् ॥ ४८ ॥ तद्वैश्रवणसंश्लिष्टं
होवस्वतपुरस्सरम् । वारिराजपरिन्तिसं देवराजविराजितम् ४९
चन्द्रभाभिर्विपलां युद्धाय समुपस्थितम् । पवनाविद्धनिर्घोषं

और विचित्र बस्त्ररूपी कवचको पहन रहे थे अत एव वह धातु
वाले पर्वतकी समान दीखते थे ४३ उनका वस्त्रःस्थल चौड़ा
था और उस पर मुखमें आधे-निगले हुए शिर पर रत्न धारण
करने-वाले सर्वके रत्नकी चमक पड़ रही थी इसकारण उनका
वस्त्रःस्थल शीनल किरण वाले चन्द्रमाकी समान शोभा पारहा
था ॥ ४४ ॥ जैसे प्रलयकालमें इन्द्रचापोंसे घिरे हुए बादलोंसे
आकाश शोभा पाता है इसी प्रकार स्वर्गमें अपने सुन्दर पर
वाले पक्षोंको फोलानेसे वह शोभा पारहे थे ४५ वह नील पीत
और रक्त वर्णकी पताकाओंसे अलंकृत थे और शत्रुसे दीग्वते
वे और ध्वजा-पर लगानेके योग्य थे और वह पत्तियोंमें उत्तम
गरुड़ अपने शरीरसे सुवर्णकी समान दीख रहे थे उन अरुणके
छोटे भाई गरुड़ परःसवार होकर श्रीमान् हरि युद्धस्थलमें आये
थे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ उस समय तपोधन मुनि और देवता
मंत्रमयी स्तुतियोंसे श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए उनके पीछे २
चलने लगे ४८ उस समय कुबेरसे सुशोभित और जिसमें यम-
राज आगे खड़े हुए थे और जिसको वरुण हिला रहे थे और

संपदीप्तहुताशनम् ॥५०॥विष्णोर्जिष्णोः सहिष्णोश्च भ्राजिष्णो-
स्तेजसा वृतम् । वत्सं बलवदुद्भूतं युद्धाय समवर्तत ॥ ५१ ॥
स्वस्त्यस्तु देवेभ्य इति स्तुत्वा तत्रांगिराब्रवीत् । स्वस्त्यस्तु
दैत्येभ्य इति उशना वाक्यमाददे ॥ ५२ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि
आश्रये तारकामये चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ४४

शंभुपायन उवाच । ताभ्यां बलाभ्यां सज्जे तृमुलो विग्रह-
स्तदा । सुराणामसुराणां च परस्परजयैषिणाम् ॥ १ ॥ दानवा
दैवतैः सार्धं नाना प्रहरणोद्यवाः । समीयुर्गुध्यानां वै पर्वताः
पर्वतैरिव ॥ २ ॥ तत्सुरासुरसंयुक्तं युद्धमत्यद्भुतं बभौ । धर्मा-
धर्मसमायुक्तं दर्पेण विनयेन च ॥ ३ ॥ ततो रयैः प्रजविनैर्बाह-

जिसमें देवराज इन्द्र विराजमान थे ॥ ४६ ॥ और जो चन्द्रमाकी
चौदनीसे निर्मल दीख रहा था और पवनके चलनेसे जिसका
गुल गपाड़ा कुछ नहीं सुनाई देता था और जिसमें अग्नि जल
रही थी ॥ ५० ॥ ऐसा वह जीतने वाले सहनशील कान्तिमान्
श्रीकृष्णके तेजसे व्याप्त बलवान्की समान उठा हुआ देवताओंका
सेनादल युद्ध करनेके लिये उठ खड़ा हुआ ॥ ५१ ॥ उस समय
बृहस्पतिजीने स्तुति करके कहा, कि-देवताओंका कल्याण
(स्वस्ति) हो और शुक्राचार्यने कहा, कि-दानवोंका कल्याण
हो ॥ ५२ ॥ चौथालीसवें अध्याय समाप्त ॥ ४४ ॥

शंभुपायनजीने कहा, कि-परस्पर जीतना चाहने वाले देवता
और असुरोंकी सेनामें घोर संग्राम होने लगा ? जैसे पर्वतसे
पर्वत लड़ते हैं तैसे ही दानव भी अनेक प्रकारके आयुधोंको
उठा कर देवताओंसे युद्ध करते आपसमें घोलमेल होगए २
३४ दर्प और विनय, धर्म और अधर्मसे मिला हुआ देवता और
और दैत्योंका युद्ध अद्भुत लगने लगा इसदनन्तर रथोंके शीघ्रता

नैश्च प्रचोदितैः । उत्पत्तद्भिश्च गगनं सामिहस्तैः समन्ततः ४
 वित्तिप्यमाणैश्च शनैः संप्रेष्यद्भिश्च सायकैः। चापैर्विस्फार्यमाणैश्च
 पात्पमानैश्च मुद्गरैः॥५॥तद्युद्धमभवद्दुधोरं देवदानवसंकुलम् । जग-
 तस्त्रासजमनं युगसंवर्तकोपमम् ॥६॥स्वहस्तमुवतैः परिघैः त्तिप्य-
 माणैश्च पर्वतैः । दानवाः समरे जघ्नुर्देवाभिद्रुपुगमान् ते व-य-
 माना बलिभिर्दानवैर्नितकाशिभिः । विपण्यनसो देवा जग्मु-
 रानिं परां मृधे॥७॥तेऽस्त्रजानैः प्रमथिताः परिघैर्भिन्नमस्तकाः ।
 भिन्नोरस्का दितिमुतैरेभू रक्तं त्रणैर्मुहुः ॥ ६ ॥ स्पन्दिताः
 पाशजानैश्च निर्यत्नाश्च शरैः कृताः । प्रविष्टा दानवां मायां न
 शोकुस्ते विचेष्टितुम् ॥ १० ॥ संस्तम्भितमिवाभाति निःपाण-

ते दौड़नेसे और घोड़ोंके पीटनेसे और तलबारों सहित कट
 कर ऊपरकी उबलते हुए हाथोंसे तथा फेंके जाते हुए मूसलोंसे
 तथा छोड़े जाते हुए चारोंसे तथा स्रैवे जाते हुए धनुषोंसे और
 गिराये जाते हुए मूसलोंसे वह देव दानवोंका घोर युद्ध जगत्के
 प्रलयके समयके अग्निकी समान जगत्को त्रास देने लगा ४-६
 दानव अपने हाथोंमेंसे परिघ फेंक कर और पर्वतोंको मार
 कर समरमें इन्द्र आदि देवताओंको मारने लगे ७ जीतनेसे
 कान्तिमान लगते हुए दानवोंके हाथसे युद्धमें पिटने पर देवता
 मनमें खिन्न होकर परम दुःखित हुए ८ दानवोंने परिघोंसे देव-
 ताओंके मस्कोंको फोड़ डाला और अस्त्र मारकर उनके हृदयको
 तोड़ डाला तब देवताओंके घावोंमेंसे रुधिर बहनेलगा ॥६॥
 दानवोंने पाशोंसे देवताओंको घायल कर दिया और बाण मार
 कर उनकी निश्चेष्ट कर दिया इस प्रकार दानवोंकी मायाके बशमें
 होने पर देवताओंमें हिलने डुलनेकी भी शक्ति नहीं रही १०
 जब असुरोंने देवताओंकी सेनाको निश्चेष्ट कर दिया और उनके
 पास आयुध भी नहीं रहे तब वह सेना मुर्देकी समान स्तम्भित

सदृशाकृति । वनं सुराणामसुरेभिः प्रयत्नायुधं कृतम् ॥ ११ ॥
 मायापाशान्विकर्षश्च भिद्मन् तज्ज्ञेय ताञ्छरान् । शक्रो दैत्यवर्गं
 घोरं विवेश बहुलोचनः ॥ १२ ॥ स दैत्यान् प्रमुखे हत्वा तदा-
 नववर्गं महत् । तामसेनास्त्रजालेन तमोभूतगथाकरोत् ॥ १३ ॥
 तेऽन्योन्यं नावबुध्यन्त देवांस्तान् दानवानपि । घोरेण तमसा-
 विष्टाः पुरुहूतस्य तेजसा ॥ १४ ॥ मायापाशैर्विपुक्तोश्च यत्न-
 वन्तः सुरोत्तमाः । वपुंषि दैतासंघानां तमोभूतान्यप्रातयन् १५
 अघ्नस्ता विसंज्ञारन तमसा नीलवर्चसः । पेतुस्ते दानवगणा-
 रिद्धन्तः इवाचलाः १६ तद्दघनीभूतदैत्यानामन्धकारमहाणवम् ।
 मविष्टं बलमुत्तस्तं तमोभूतमिवावभौ । तदासृजन्महामायां मगस्तां-
 तामसां दहन । युगांताग्निमिवात्युग्रां सृष्टामौर्वेण बन्धिना १८
 दीखने लगी ११ उस समय अनेक-नेत्रों वाला इन्द्र दानवोंके
 अस्त्रोंको बज्रसे तोड़ता हुआ और मायाके पाशोंसे खोलता
 हुआ दानवोंकी भयंकर सेनामें घुस गया ॥ १२ ॥ उस समय
 उसने सेनाके मुहाने पर दानवोंकी बहुतसी सेनाका संहार करके
 तामसास्त्र छोड़ कर अंधेरा कर दिया १३ उस समय इन्द्रके तेजसे
 विस्तृत हुए घोर अंधकारके कारण देवता और दानव अपने-
 २ पक्षके व्यक्तियोंको भी न पहिचान सके १४ उत्तम देवता यत्न करके
 मायामय बन्धनोंसे छट गए और उन्होंने राक्षसोंके अंधेरेमें पड़े हुए
 शरीरोंका नाश करना आरंभ कर दिया १५ जैसे पर कटने पर पर्वत
 गिर पड़ते हैं वैसेही अंधकारसे नीली कान्ति वाले दैत्य पिटने पर
 वेहोश होकर गिरने लगे १६ उस समय इकट्ठे हुए दानवोंका अंध-
 कार रूपी समुद्र जय पीड़ा राकर (देवताओंकी) सेनामें घुसा तो
 अंधकारसा प्रतीत होने लगा १७ उस समय मय दानवने इन्द्रकी
 तामसी मायाका संहारकर और अग्निकी रची हुई प्रलयकालकी
 अग्निकी समान उग्र मायाको रचना-आरंभ कर दिया ॥ १८ ॥

सा ददाह तपः सर्वं मायामभ्विकल्पिता । दैत्यारच दीप्तवपुषः
 सद्य उत्तस्थुराहवे ॥१६॥ मायामौर्वी समासाद्य दह्यमाना दिवो-
 कसः । भेजिरे चन्द्रविषयं शीतांशुसखिलेशयात् ॥ २० ॥ ते दह्य-
 माना ह्यौर्वेण तेजसा भ्रष्टतेजसः । शशंसुर्वज्रिणो देवाः सन्तप्ताः
 शरयोपिणः ॥२१॥ सन्तप्ते मायया सैन्ये दह्यमाने च दानवीः ।
 चोदितो देवराजेन बरुणो वाक्यमब्रवीत् ॥२२॥ बरुण उवाच ।
 पुरा ब्रह्मर्षिजः शक्रस्तपस्तेपेऽति दारुणमाऊर्वो मुनिः स तेजस्वी
 सदृशो ब्रह्मणो गुणैः २३तं तपन्तमिवादित्यं तपसा जगदव्ययम् ।
 उपतस्थुर्मुनिगणा देवा ब्रह्मर्षिभिः सह २४ हिरण्यकशिपुश्चैव
 दानवो दानवेश्वरः । ऋषिं विज्ञापयामास पुरा परमतेजसम् २५
 तमूर्चुर्ब्रह्म ऋपयो वचनं ब्रह्मसम्मितम् । ऋपिवंशेषु भगवन्

मयकी रचीहुई मायासे सारे अंधकारका नाश होगया और
 दानव चमकने लगे तब शीघ्र ही युद्धमें खड़े होगये ॥१६॥
 उस समयदेवता और्वी मायासे भस्म होने लगे और शिशिर
 ऋतुके जलमें शयन करनेके लिये चन्द्रमाके समीपगए ॥ २० ॥
 देवता और्विके तेजसे तेजोहीन होगए और सन्ताप पाकर शरण
 पानेकी इच्छासे इन्द्रसे कहने लगे ॥२१॥ जब सेना सन्तप्त होने
 लगी और दानव उसको भस्म करने लगे तब देवराजके उकसाने
 पर बरुणने कहा ॥ २२ ॥ बरुणने कहा, कि-पहिले ब्रह्माजीके
 पुत्र ऊर्व नामक एक मुनि थे उन तेजस्वीमें ब्रह्माजीके समान
 गुण थे उन्होंने अतिदारुण तप करना आरम्भ करदिया था २३
 जब उनके तपसे जगत् सूर्यकी धूपसे जैसे तपता है तैसे तपने
 लगा तब देवता ब्रह्मर्षि और मुनि उनके पास आये ॥ २४ ॥
 और दानवेश्वर हिरण्यकशिपु भी उन परमतेजस्वी ऋषिके पास
 गया था ॥२५॥ उस समय ब्रह्मर्षियोंने उनसे वेदसम्मत वचन
 कहा, कि-हे भगवन् ! ऋपिवंशोंमें आपके कुलकी जड़ फटती

सदृशा कृति । वज्रं सुगणाममुरेनिःप्रयत्नापुधं कृतम् ॥ ११ ॥
 मायापाशान्विकर्षश्च भिद्मन् वज्रेण ताञ्छरान् । शक्रो दैत्यवलां
 घोरं विवेश बहुलोचनः ॥ १२ ॥ स दैत्यान् प्रमुखे हत्वा तदा-
 नववज्रं महत् । तामसेनास्त्रजालेन तमोभूतमथाकरोत् ॥ १३ ॥
 तेऽन्योन्यं नावबुध्यन्त देवांस्तान् दानवानपि । घोरेण तमसा-
 विष्टाः पुरुहूतस्य तेजसा ॥ १४ ॥ मायापाशैर्विमुक्तोश्च यत्न-
 वन्तः सुरोत्तमाः । वपुंषि दैतासंत्रानां तमोभूतान्यपातयत् १५
 अथधास्ता विसंज्ञाश्च तमसा नीलवर्चसः । पेतुस्ते दानवगणा-
 शिब्धन्पक्षा इवाचलाः १६ तद्दधनीभूतदैत्यानामन्धकारमहाण्वम् ।
 मविष्टं-वल्गुमुत्रस्तं तमोभूतमिवावभौ । तदासृजन्महामायां मंगस्तां
 तामसां दहन । युगांताग्निमिवात्युग्रां सृष्ट्वाभौर्वेण बन्धिना १७
 दीखने लगी ११ उस समय अनेक नेत्रों वाला इन्द्र दानवोंके
 अस्त्रोंको वज्रसे तोड़ता हुआ और मायाके पाशोंको खोलता
 हुआ दानवोंकी भयंकर सेनामें घुस गया ॥ १२ ॥ उस समय
 उसने सेनाके मुहाने पर दानवोंकी बहुतसी सेनाका संहार करके
 तामसास्त्र छोड़ कर अंधेरा कर दिया १३ उस समय इन्द्रके तेजसे
 विस्तृत हुए घोर अंधकारके कारण देवता और दानव अपने-
 २ पक्षके व्यक्तियोंको भी न पहिचान सके १४ उत्तम देवता यत्न करके
 मायामय बन्धनोंसे छट गए और उन्होंने राक्षसोंके अंधेरेमें पड़े हुए
 शरीरोंका नाश करना आरंभ कर दिया १५ जैसे पर कटने पर पर्वत
 गिर पड़ते हैं तैसेही अंधकारसे नीली कान्ति वाले दैत्य पिटने पर
 बेहोश होकर गिरने लगे १६ उस समय इकट्ठे हुए दानवोंका अंध-
 कार रूयी समुद्र जब पीड़ा पाकर (देवताओंकी) सेनामें घुसा तो
 अंधकारसामतीत होने लगा १७ उस समय मय दानवने इन्द्रकी
 तामसी मायाका संहार कर और अग्निकी रची हुई मलयकालकी
 अग्निकी समान उग्र मायाको रचना-आरंभ कर दिया ॥ १८ ॥

सा ददाह तपः सर्व मायामयविकल्पिता । दैत्याश्च दीप्तवपुः
 सद्य उत्तस्थुराहवे ॥१६॥ मायामौर्वी समासाद्य दह्यमाना दिवी-
 कसः । भेजिरे चन्द्रविषयं शीर्ताशुसलिलेशयात् ॥ २० ॥ ते दह्य-
 माना ह्यौर्वेण तेजसा भ्रष्टतेजसः । शशंसुर्वज्जिणो देवाः सन्तप्ताः
 शरपौपिणः ॥२१॥ सन्तप्ते मायया सैन्ये दह्यमाने च दानवीः ।
 चोदितो देवराजेन बरुणो वाक्यमब्रवीत् ॥२२॥ बरुण उवाच ।
 पुरा ब्रह्मर्षिजः शक्रस्तपस्तेपेऽति दारुणमूर्ध्वो मुनिः स तेजस्वी
 सदृशो ब्रह्मणो गुणैः २३तं तपन्तमिचादित्यं तपसा जगदव्ययम् ।
 उपतस्थुर्मुनिगणा देवा ब्रह्मर्षिभिः सह २४ हिरण्यकशिपुश्चैव
 दानवो दानवेश्वरः । ऋषिं विज्ञापयामास पुरा परमतेजसम् २५
 तमूर्धुर्व्रह्म ऋषयो वचनं ब्रह्मसम्मितम् । ऋषिवंशेषु भगवन्

मयकी रचीहुई मायासे सारे अंधकारका नाश होगया और
 दानव चमकने लगे तब शीघ्र ही युद्धमें खड़े होगये ॥१६॥
 उस समयदेवता भौर्वी मायासे भस्म होने लगे और शिशिर
 ऋतुके जलमें शयन करनेके लिये चन्द्रमाके समीपगए ॥ २० ॥
 देवता भौर्वीके तेजसे तेजोहीन होगए और सन्ताप पाकर शरण
 पानेकी इच्छासे इन्द्रसे कहने लगे ॥२१॥ जब सेना सन्तप्त होने
 लगी और दानव उसको भस्म करने लगे तब देवराजके उकसाने
 पर बरुणने कहा ॥ २२ ॥ बरुणने कहा, कि-पहिले ब्रह्माजीके
 पुत्र ऊर्व नामक एक मुनि थे उन तेजस्वीमें ब्रह्माजीके सपान
 गुण थे उन्होंने अतिदारुण तप करना आरम्भ करदिया था २३
 जब उनके तपसे जगत् सूर्यकी धूपसे जैसे तपता है तैसे तपने
 लगा तब देवता ब्रह्मर्षि और मुनि उनके पास आये ॥ २४ ॥
 और दानवेश्वर हिरण्यकशिपु भी उन परमतेजस्वी ऋषिके पास
 गया था ॥२५॥ उस समय ब्रह्मर्षियोंने उनसे वेदसम्मत वचन
 कहा, कि-हे भगवन् ! ऋषिवंशोंमें आपके कुलकी जड़ कटती

द्विन्नमूलमिदं कुलम् ॥ २६ ॥ एकस्त्वमनपत्यश्च गोत्रं यन्ना-
नुवर्तसे । कौमारं व्रतमास्थाय क्लेशमेवानुवर्तसे ॥ २७ ॥ बहूनि
विप्र गोत्राणि मुनीनां भावितात्मनाम् । एकदेहानि तिष्ठन्ति विभ-
क्तानि विना प्रजः ॥ २८ ॥ कुलेषु द्विन्नमूलेषु तेषु नो नास्ति
कारणम् । भवांस्तु तपसा श्रेष्ठः प्रजापतिसमनुतिः ॥ २९ ॥
तत् प्रवर्तस्व वंशाय वर्धयात्मानमात्मना । त्वमाधत्स्वोर्जितं तेजो
द्विर्नीया वै तनुं कुरु ॥ ३० ॥ स एवमुक्तो मुनिभिर्मुनिर्मनसि
ताडितः । जगहं तानृषिगणान् वचनं चेदमब्रवीत् ॥ ३१ ॥
यथाऽयं शाश्वतो धर्मो मुनीनां विहितः पुरा । सदार्पं सेवतां
कर्म वन्यमूलफलाशिनाम् ॥ ३२ ॥ ब्रह्मयोनीं प्रसूतस्य ब्राह्म-

चली जारही है ॥ २६ ॥ आप अपने कुलमें एक ही वचे हैं, तो
भी आप गोत्र चलाना (पुत्र पौत्र उत्पन्न करना) नहीं चाहते
और ऊर्ध्वरेता होनेका व्रत धारण करके (तपोजन्य) क्लेशको
ही भोग रहे हैं २७ हे विप्र ! बहुतसे पवित्रात्मा मुनियोंके गोत्र
प्रजा न होनेसे विस्तार न पाकर एक शरीरमें ही वर्तमान रहते
रहते जड़ कटजाने पर नष्ट होगए हैं, अतएव उनकी वृद्धि न
होसकी, परन्तु (आप तो अपने वंशकी मूल वर्तमान हैं आपके
वर्तमान रहते हुए प्रजाका उच्छेद न होना चाहिये) आप तो
तपमें श्रेष्ठ हैं और आपकी कान्ति प्रजापतिकी समान है २८-२९
अतः आप अपने वंशको बढ़ानेका उद्योग करिये और अपनेसे
अपने आपको बढ़ाइये आप अपने बलवान तेजका आधान करके
अपने दूसरे (पुनरूप) शरीरकी रचना करिये ३० ऋषियोंके
इसप्रकार कहने पर उन मुनिके मनमें क्षोभ हुआ और वह
ऋषियोंकी निन्दा करते हुए यह कहने लगे ३१ वनके फलमूल
खानेवाले और सदा आर्प आचारका पालन करनेवाले मुनियों
का जो यह (तपोरूप) शाश्वत धर्म रचा गया है ३२ ब्राह्मण

एस्यानुवर्तिनः । ब्रह्मचर्यं सुचरितं ब्रह्माणमपि चालयेत् ॥३३॥
 द्विजानां वृत्तयस्तिस्त्रो ये गृहस्थाश्रमवासिनः । अस्माकं तु वनं
 वृत्तिर्वनाश्रमनिवासिनाम् ॥३४॥ अम्बुभक्ष्या वायुभक्ष्या दन्तो-
 लूखलिकास्तथा । अश्मकुटा दशनगाः पञ्चातपतपारच ये ।३५।
 एते तपसि तिष्ठन्तो ब्रह्मैरपि सुदुष्करैः । ब्रह्मचर्यं पुरस्कृत्य प्रार्थ-
 यन्ते परां गतिम् ॥ ३६ ॥ ब्रह्मचर्याद् ब्राह्मणस्य ब्राह्मणत्वं
 विधीयते । एवमाहुः परे लोके ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ ३७ ॥
 ब्रह्मचर्ये स्थितं धैर्यं ब्रह्मचर्ये स्थितं तपः । ये स्थिता ब्रह्मचर्येषु
 ब्राह्मणास्ते दिवि स्थिताः ॥ ३८ ॥ नास्ति योगं विना सिद्धि-

कुलमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंके धर्मोंका पालन करनेवाले द्विजका
 यह ब्रह्मचर्य व्रत यदि भलीप्रकार पाला जाय तो ब्रह्माको भी
 विचलित करसकता है ३३जो गृहस्थाश्रममें रहते है उन ब्राह्मणों
 की (यज्ञ कराना, पढ़ाना और दान लेना ये) तीन मुख्य
 वृत्तियों है, परन्तु वानप्रस्थ आश्रमका पालन करनेवाले हम (कौमार-
 व्रतपालक) वनवासियोंका तो वनमें रहना ही परमधर्म है ॥३४।
 जो जलका पान करते है और जो वायुका भक्षण करते है और
 जो दाँतरूपी उलूखलोंसे (कड़ी वस्तुओंको कूटकर) खाते है,
 और जो पथरोंसे फोड़े हुए पदार्थोंके (रसोंको) दाँतोंसे
 पीजाते हैं और जो पञ्चाग्नि तप करते है ॥ ३५ ॥ ये सुदुष्कर
 व्रत कर तप करते हुए और साथमें ब्रह्मचर्यका पालन कर
 दुष्कर गतिको पाना चाहते है ॥३६॥ ब्रह्मचर्यका पालन करने
 से ब्राह्मणोंमें ब्राह्मणत्व आता है, यह बात ब्राह्मण और ब्रह्म
 को जानने वाले मनुष्य परलोकमें भी कहते है ॥३७॥ ब्रह्मचर्य
 में धैर्य रहता है, और ब्रह्मचर्यमें तप रहता है, जो ब्राह्मण ब्रह्म-
 चर्यका पालन करते हैं, उनको स्वर्गमें स्थित समझना चाहिये ३८
 योगके बिना सिद्धि नहीं मिल सकती और सिद्धिके बिना यश

नास्ति सिद्धिं विना यशः । नास्ति लोके यशो मूलं ब्रह्मचर्यात्
परं तपः ॥ ३६ ॥ तन्निगृह्येन्द्रियग्रामं भूतग्रामं च पञ्चमम् ।
ब्रह्मचर्येण वर्तेन किमतः परमं तपः ॥ ४० ॥ अयोगे केशहरण-
मसंकल्पे व्रतक्रिया । अब्रह्मचर्ये चर्या च त्रयं स्यादम्भसंज्ञितम् ४१
क दाराः क च संयोगः क्व च भावविपर्ययः । यदेयं ब्रह्मणा
सृष्टा मनसा मानसी प्रजा ॥ ४२ ॥ यद्यस्ति तपसो वीर्यं युष्मा-
कममितात्मनाम् । सृजध्वं मानसान् पुत्रान् मानापत्येन कर्मणा ४३
मनसा निर्मिता योनिराधातव्या तपस्विना । न दारयोगं वीजं
वा व्रतमुक्तं तपस्विनाम् ॥ ४४ ॥ यदिदं लुप्तवर्मार्थं युष्माभिरिह

नहीं मिल सकता, ब्रह्मचर्यरूपी तपसे श्रेष्ठ इस लोकमें यश
दिलाने वाली और कोई वस्तु नहीं है ॥ ३६ ॥ अत एव
इन्द्रियोंको तथा पृथिवी आदिपञ्चमहाभूतोंके विषयोंको वशमें
रख कर ब्रह्मचर्यसे रहनेसे बढ़ कर और क्या तप होसकता
है ॥ ४० ॥ यदि (संन्यासी जो कि-ध्यानभिन्नु है वे) योग
अवश्यकर्तव्य योगरूप ध्यान) के न होने पर अपना शिर मुँडा
डाले और (वानप्रस्थाश्रमी) असंकल्प करने अर्थात् (परलोक
की कामना न रखने) पर यदि लोकरञ्जनके लिये ही कृच्छ्र-
व्रत आदि) व्रत पाले और वेदाध्ययनरूप ब्रह्मचर्यके विना
यदि ब्रह्मचर्य पाला जाय तो यह तीनों दम्भ कहलाते हैं ॥ ४१ ॥
जब ब्रह्मार्जने (सनत्कुमार आदि) मानसी प्रजाको रचा था
उस समय स्त्री कहाँ थी और स्त्रीसंयोग कहा था और कामा-
तुरता कहाँ हुई थी ? ॥ ४२ ॥ और (हे मुनियों !) यदि तुम
पवित्र आत्मा वालोंमें तपकी कुछ शक्ति हो तो तुम प्रजापतिकी
समान कर्म करके मानसी पुत्रोंको उत्पन्न करो ॥ ४३ ॥ तपस्वी
को तो अपने मनसे बनाई हुई योनि (पुत्रोत्पत्तिका स्थान)
निश्चित करनी चाहिये, तपस्वीके लिये स्त्रीग्रहण करना और

निर्भयः । व्याहृतं सद्भिरत्पर्यमसद्भिरिव मे पतिः ॥ ४५ ॥
 वपुर्दीप्तांतरात्मानमेव कृत्वा मनोमयम् । दारयोगं त्रिणा सृष्टये
 पुत्रमात्मतनूरुद्धम् ॥ ४६ ॥ एवमात्मानमात्मा मे द्वितीयं जन-
 यिष्यति । अन्येनानेन निधिना दिधन्तन्निव प्रजाः ॥ ४७ ॥
 ऊर्वस्तु तपसाविष्टो निवेश्योरुं हुताशने । ममन्धीकेन दर्भेण
 पुत्रस्य प्रभचारणिम् ॥ ४८ ॥ तस्योरुं सहसा भित्त्वा ज्वालामाली
 निरिंधनः । जगतो निधनाकांक्षी पुत्रोऽग्निः समपद्यत ४९
 ऊर्वस्योरुविनिर्भय और्वो नामान्तकोऽनलः । दिधन्निव
 लोकांस्त्रीन् जज्ञे परमकोपनः ॥ ५० ॥ उत्पन्नमात्रश्चोवाच पितरं

बीजप्रदान करना नहीं कहा है, तपस्वियोंको तो व्रत करना ही
 लिखा है ॥ ४४ ॥ यद्यपि तुम सज्जन हो तथापि मेरा विचार
 है, कि-तुमने निर्भय होकर असज्जन पुरुषोंकी समान ही यह
 धर्म और अर्थसे शून्य बात कही है ॥ ४५ ॥ मैं संकल्पसे सिद्ध
 होने वाले अपने मनोमय वपु (जिसमें बीज बोया जाता है,
 उष्यते बीजमस्मिन्निति वपुः-यानि) को बनाकर स्त्रीसंभोग
 किये त्रिणा ही अपने शरीरसे प्रदीप्त अन्तरात्मा वाले पुत्रको
 उत्पन्न करता हूँ ॥ ४६ ॥ मेरा आत्मा इस प्रकार ही वनकी
 विधि (तप) से प्रजाको भस्मसा करना चाहने वाले दूसरे
 आत्मा (पुत्र) को उत्पन्न करेगी ४७ (इस प्रकार कह कर)
 तपमें भरे हुए ऊर्व मुनिने आनी जाँवको अग्निमें डाल दिया
 और पुत्र उत्पन्न होनेकी अरुणिरूप उस (जँवा) को
 एक कुशासे मथने लगे ४८ उस समय सहसा उनकी जाँवको
 फोड़कर जगत् की मृत्यु चाहने वाला निर्धूम ज्वालामाली अग्नि-
 रूप एक पुत्र उत्पन्न हुआ ४९ ऊर्वकी ऊरुको फोड़ कर तीनों
 लोकोंको भस्म करना चाहने वाला और्व नामक यमराजसा
 परमक्रोधी अग्नि उत्पन्न हुआ था ॥ ५० ॥ उसने उत्पन्न

दीप्तया गिरा । क्षुधा मे बाधते तात जगद्भक्तो त्वजस्व माम् ५१
 त्रिदिवारोहिभिर्ज्वालैर्जृभमाणो दिशो दश । निर्दहन्निव भूतानि
 वदुषे सोऽन्तकोऽनलः ॥५२॥ एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सर्वलोकपतिः
 मभ्युः । आजगाम मुनिर्यत्र व्यसृजत् पुत्रमुत्तमम् ॥ ५३ ॥ स
 ददर्शोरुमूर्वस्य दीप्यमानं सुताग्निना । अर्वाकोपाग्निसंतप्तान्
 लोकांश्च ऋषिभिः सह ॥ ५४ ॥ तमुवाच ततो ब्रह्मा मुनिमूर्व
 सभाजयन् । धार्यतां पुत्रजं तेजो लोकानां हितकाम्यया ॥५५॥
 अस्यापत्यस्य ते विप्र करिष्ये साह्यमुत्तमम् । वासं चास्य प्रदा-
 स्यामि प्राशनं चामृतोरमम् । तथ्यमेतन्मम वचः शृणु त्वं वदतां
 वर ॥ ५६ ॥ ऊर्ध्व उवाच । धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यन्मेऽद्य
 भगवन् शिशोः । मतिमेतां ददातीह परमानुग्रहाय वै ॥ ५७ ॥

होते क्षण ही मदीप्त वाणीमें अपने पितासे कहा, कि—
 हे तात ! भूख मुझे पीडा देरही है, आप मुझे छोड़ दीजिये
 मैं जगत्का भक्षण करूँगा ५१ वह यमराजस्वरूप अग्नि प्राणियों
 को भस्मसा करता हुआ अपनी त्रिलोकीमें पहुँचनेवाली ज्वाला-
 अँको दशों दिशाओंमें फैलाता हुआ बढ़ने लगा ५२ इसीसमय
 सब लोकोंके स्वामी मभ्य ब्रह्माजी मुनिने जहाँ अपने उत्तम पुत्र
 को छोड़ रक्खा था तहाँ पहुँचे ५३ उन्होंने पुत्रकी अग्निसे
 मदीप्त ऊर्ध्वकी जंघाको देखा और उन्होंने अर्वाकी कोपाग्निसे
 सन्ताप पाते हुए ऋषि और लोकोंको भी देखा ५४ उस समय
 ब्रह्माजी ऊर्ध्व मुनिका सत्कार करते हुए उनसे कहने लगे, कि—
 हे विप्र ! तुम लोकहितके लिये अपने पुत्रके तेजको रोके रहो ५५
 और हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! तुम मेरे इस तथ्य वचनको भी सुनो,
 कि—मैं तुम्हारे इस पुत्रकी बड़ी सहायता करूँगा, इसने रहनेके
 लिये स्थान भी दूँगा और अमृतकी समान भोजन दूँगा ५६
 उर्ध्वने कहा, कि—मैं धन्य हूँ, कि—आप मेरे पुत्रके लिये ऐसी इच्छा

प्रभावकाले संप्राप्ते काञ्चित्कल्पे समागमे । भगवन्स्तर्पितः पुनः
 कैर्हृद्यैः प्राप्स्यते सुखम् ॥५८॥ कुत्र चास्य निवासो वा भोजनं
 च किमात्मकम् । विधास्यति भवानस्य वीर्यतुल्यं महौजसः, ५९
 ब्रह्मोवाच । बहवामुखेऽस्य वसतिः समुद्रास्ये भविष्यति । मम
 योनिर्जलं विप्र तच्च तोयमयं वपुः ॥ ६० ॥ तद्विस्तव पुत्रस्य
 विसृजाम्या नयं तु तत् । तत्रायमास्तां नियतः पिवन् वारिमयं
 हविः ॥ ६१ ॥ ततो युगान्ते भूतानामेष चाहं च सुव्रत । सहितौ
 विचरिष्यावो लोकानिति पुनः पुनः ॥ ६२ ॥ एषोऽग्निरन्तकाले
 तु सलिलाशी मया कृतः । दहनः सर्वभूतानां सदेवासुररत्न-
 साम् ॥ ६३ ॥ एवमस्त्विति सोऽप्यग्निः संवृतञ्चालमण्डलः ।
 प्रविवेशार्णवमुखं निःक्षिप्य पितरि प्रभाम् ॥ ६४ ॥ प्रतिपात-

प्रकट कर रहे हैं ५७ हे भगवन् ! जब इसके प्रभाव (दिखाने)
 का अवसर आवेगा और इसकी उपस्थितिकी आवश्यकता
 होगी तब यह कौनसी हविसे तृप्त होकर सुख पावेगा ५८ इसका
 निवासस्थान कहाँ होगा ? और इसको कैसा भोजन मिलेगा
 इसप्रकार आप इसके वीर्यके अनुरूप क्या क्या व्यवस्था
 करेंगे ५९ ब्रह्माजीने कहा, घोड़ीके समान मुखवाले समुद्रके मुखमें
 यह अग्नि रहेगा, हे विप्र ! जल मेरी योनि है और वह जलमय
 शरीरको धारण करता है ६० वही तेरे पुत्रकी हवि होगी और
 तर्ष ही मैं उसके लिये स्थान देता हूँ, तर्षों पर यह जलमय
 हविका पात्र करता रहे ६१ हे सुव्रत ! तदनन्तर प्रलयकाल
 आने पर यह और मैं इकट्ठे होकर लोकोंमें वारम्बार घूमेगे ६२
 इस अग्निको मैंने जलका भक्षण करने वाला बना दिया, यह
 प्रलयके समय देवता राजस और असुर आदि सब भूतोंको
 भस्म करेगा ६३ ज्वालाओंसे घिरा हुआ वह अग्नि भी एवमस्तु
 कह कर अपने पितामें अपनी प्रभाको स्थापित कर समुद्रमें घुस

स्ततो ब्रह्मा ते च सर्वे महर्षयः। श्रौर्वस्याग्नेः प्रभावज्ञाः स्वां स्वां
मतिमुपाश्रिताः ॥ ६५ ॥ हिरण्यकशिपुर्हृष्टा तदद्भुतमपूजयत् ।
ऊर्वं प्रणतसर्वाङ्गो दाक्यं चेदमुवाच ह ॥ ६६ ॥ भगवन्नद्भुत-
मिदं निवृत्तं लोकसान्निहिकम् । तपसा ते मुनिश्रेष्ठ परितुष्टः पिता-
महः ॥ ६७ ॥ अहं तु तव पुत्रस्य तव चैव महाव्रत । भृत्य
इत्यवगन्तव्यः रत्नाद्योऽस्मि यदि कर्मणा ॥ ६८ ॥ तन्मां परय
समापन्नं तवैवाराधने रतम् । यदि सीदे मुनिश्रेष्ठ तर्वाव स्यात्
पराजयः ॥ ६९ ॥ ऊर्व उवाच । धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य
तेऽहं गुरुर्मतः । नास्ति ते तपसाग्नेन भयमद्येह सुव्रत ॥ ७० ॥
इमां च मायां गृह्णीष्व मम पुत्रेण निर्मिताम् । निरिन्धनामग्नि-
मयी दुःस्पर्शा पावकैरपि ॥ ७१ ॥ एषा ते स्वस्य वंशस्य वंश-

गया ६५ श्रौर्व अग्निके प्रभावको जाननेके अनन्तर ब्रह्माजी
चले गए और ब्रह्मर्षि भी अपने २ स्थानोंको चले गए ६५
हिरण्यकशिपु इस अद्भुत बातको देख प्रसन्न हुआ और उसने
ऊर्वको साष्टांग प्रणाम कर यह बात कही ॥ ६६ ॥ कि—हे
भगवन् ! आपने लोकोंके सामने यह अद्भुत बात दिखाई है, हे
मुनिश्रेष्ठ ! आपके तपसे पितामह भी प्रसन्न हो गए थे ॥ ६७ ॥
यदि आप मेरे कर्मोंको अच्छा समझते हों तो आप मुझे अपने
और अपने पुत्रका किकर समझिये ॥ ६८ ॥ इस लिये आपकी
सेवामें परायण रहने वाले मेरी ओर आप दृष्टि डालिये हे
मुनिश्रेष्ठ ! यदि मेरी हार होगी तो वह आपकी ही हार है ६९
ऊर्वने कहा, कि—मैं धन्य हूँ, कि— आप मुझें गुरु मानते हैं,
हे सुव्रत ! तुम्हें इस तपसे कुछ भय नहीं रहेगा ॥ ७० ॥ तुम मेरे
पुत्र की बनाई हुई इस मायाको ग्रहण करो, इस ईधनशून्य
अग्निको अग्नि भी कठिन्तासे छू सकेंगे ॥ ७१ ॥ शत्रुओंको
चरामें फलने समय यह विद्या तेरे वंश वालोंके वशमें रहेगी और

गारिविनिग्रहे । रक्षिष्यत्यात्मपत्नं स पराश्च प्रहरिष्यति ॥७२॥
 एवमस्त्विति तां शृणु प्रणम्य मुनिपुङ्गवम् । जगाम त्रिदिवं हृष्टः
 कृतार्थो दानवेश्वरः ॥ ७३ ॥ वरुण उवाच । संपा दुर्विपद्मा
 माया देवैरपि दुरासदा । और्वेण निर्मिता पूर्वं पावकेनोर्व-
 म्मुना ॥ ७४ ॥ तस्मिस्तु द्युस्थिते दैत्ये निर्वीर्या न संशयः ।
 शापो ह्यस्याः पुरा दत्तः सृष्टा येनैव तेजसा ॥ ७५ ॥ यद्येपा
 प्रतिहन्तव्या कर्तव्यो भगवान् सुखी । दीयतां मे सखा शक
 तोययोनिर्निशाकरः ॥ ७६ ॥ तेनाहं सह संगम्य यादोभिश्च
 समावृतः । मायामेतां इनिष्यामि त्वत्प्रसादान्न संशयः ॥ ७७ ॥
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि आर्वाग्नि-
 संभवे पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥

यह विद्या अपने पक्षवालोंकी रक्षा करेगी और शत्रुपक्षका संहार
 करेगी ॥ ७२ ॥ तब राजस एवमस्तु कह कर और उन मुनियोंमें
 श्रेष्ठ मुनिको प्रणाम करके प्रसन्न होता हुआ स्वर्गको चला
 गया ॥ ७३ ॥ वरुणने कहा, कि-इस देवताओंको भी दुःसह
 दुरासद मायाको ऊर्व ऋषिके पुत्र और्व नामक अग्निने रचा
 है ॥ ७४ ॥ (ऊर्वने यह भी कहा था, कि-तेरे जीवन तक ही
 यह माया वीर्यवती रहेगी बादको निर्वीर्य होजायगी यही बात
 कहते हैं, कि—) उस हिरण्यकशिपु नामक दैत्यके मरने पर यह
 विद्या वीर्यरहित होगई है, जिसने इसको तेजसे रचा था, उसने
 ही यह शाप दिया था ॥ ७५ ॥ यदि आप इसका संहार करना
 चाहते हैं और आप (इन्द्र) स्वयं प्रसन्न होना चाहते हैं तो
 हे इन्द्र ! आप मुझे जलयोनि मेरे मित्र चन्द्रको मेरी सहायता
 करनेकी आज्ञा दीजिये ॥ ७६ ॥ मैं सोमके और अपने जल-
 चर जीवोंके साथमें होने पर यदि आपकी कृपा होगी, तो इस
 मायाका अवश्य ही नाश कर डालूंगा ॥ ७७ ॥ ॥ ४५ ॥

वैशम्पायन उवाच । एवमस्त्विति संहृष्टः शक्रस्त्रिदशवर्धनः ।
 संदिदेशाग्रतः सोमं युद्धाय शिशिरायुधम् ॥ १ ॥ शक्र उवाच ।
 गच्छ सोम सहायं त्वं कुरु पाशधरस्य वै । अमुराणां विनाशाय
 जयाय च दिर्वाकसाम् ॥ २ ॥ त्वमपतिमवीर्यश्च ज्योतिषां
 चेश्वरेश्वरः । त्वन्मयं सर्वलोकानां रसं रसत्रिदो विदुः ॥ ३ ॥
 क्षयवृद्धी तवाव्यक्ते सागरस्येव मण्डले । परिवर्तस्यहोरात्रं कालं
 जगति योजयन् ॥ ४ ॥ लोकञ्छायामयं त्वदम तवाके शशसंज्ञि-
 तम् । न विदुः सोमदेवास्त्वां ये च नक्षत्रयोगिनः ॥ ५ ॥ त्वमा-

वैशम्पायन मुनिने कहा, कि—यह सुन कर इन्द्र परमपसन्न हुआ और देवताओंकी वृद्धि करने वाले इन्द्रने सामने खड़े हुए शिशिररूपी आयुध वाले सोमको आज्ञा दी ॥ १ ॥ इन्द्रने कहा, कि—हे सोम ! तुम पाशधारी बरुणके साथमें जाकर इनकी सहायता करो ऐसा करनेसे अमुरोंका श्रेय होगा और देवताओंकी विजय होगी ॥ २ ॥ तुम्हारा वीर्य अप्रतिम है और आप ज्योतियोंके ईश्वर (सूर्य आदि) के भी ईश्वर हैं, और सब लोकोंका रस तुममें ही रहता है (श्रुतिमें लिखा है, कि—“चन्द्र-गसा वाव सर्वाणि ज्योतींषि महीयन्ते-चन्द्रगासे ही सब ज्यो-तिये महत्त्वको पाती हैं” तात्पर्य यह है, कि—जैसे पार्थिव काष्ठ अग्निका बर्धक है, इसी प्रकार चन्द्रमा भी अविन्धन-जलभक्षक-तेजोंके बर्धक हैं, अतः उनको सूर्यका भी ईश्वर कहा है) ॥ ३ ॥ सागरके मण्डलकी समान तुम्हारी क्षय वृद्धि सदा अव्यक्त रहती है तुम संसारमें कालको बनाते हुए सदा दिन रातोंमें घूमने रहते हो ॥ ४ ॥ तुम्हारे अंशमें लोकञ्छायामयं शश नामक चिन्ह है, हे सोम ! नक्षत्रोंके पीछे चलने वाले व्यक्ति और देवता भी तुम्हें वास्तविक रीतिमें नहीं जान सकते (तात्पर्य यह है, कि—जैसे दर्पणमें पड़ती हुई नपनकी किरणें लौट कर ग्रीनामें स्थित मुख

दित्यपभानूर्ध्वं ज्योतिषां चोपरि स्थितः । तमश्चोत्सार्य वपुषा
 भासपस्यखिलं जगत् ॥ ६ ॥ रवेतभानुर्हिमन्तनुज्योतिषामधिपः
 शशी । अन्द्रकृन् कालयोगात्मा इज्यो यज्ञरसोऽन्ययः ॥ ७ ॥
 ओपथीशः क्रियायोनिरम्भयोनिरनुष्णभाक् । शीतांशुरमृता-
 भारश्चपलः रवेतवाहनः ॥ ८ ॥ त्वं कान्तिः कान्तवपुषां त्वं सोमः
 सोमवृत्तिनाम् । सौम्यस्त्वं सर्वभूतानां तिमिरघ्नस्त्वमृत्तराट् ६
 तद्रच्छ त्वं सहानेन वरुणेन वरुथिना । शमपस्वासुरी पायां यया
 दक्षाम संगरे ॥ १० ॥ सोम उवाच । यन्मां वदसि युद्धार्थं देव-

को दर्पणमें बताती है, इसी प्रकार चन्द्रमण्डलको प्राप्त होकर
 लौकी हुई किरणें दूरत्वके दोपसे पृथिवीको अद्यत्करूपमें चन्द्र-
 मण्डलमें दिग्वाती हैं, वही चन्द्रमामें कलंक माना जाता है) तुम
 आदित्यपथके ऊपर ज्योतिषोंके ऊपर स्थित रहते हो और आप
 अपने शरीरसे अकारको दूर कर सारे संसारके अंशकारको
 दूर करते हो ॥ ६ ॥ आपकी किरणें रवेत हैं आपका शरीर
 हिमपय है आप नक्षत्रोंके स्वामी हैं और आपके शशका चिन्ह
 है, आप संवत्सरके रक्षिणा हैं, कालयोगकी आत्मा है पूज्य
 है और यज्ञके रस है और अन्यय है ॥ ७ ॥ आप
 ओपथियोंके स्वामी हैं और क्रियाओंकी योनि हैं और आप
 जलयोनि हैं और आप शीतलताका सेवन करते हैं आपकी
 किरणें शीतल है आप अमृतके पात्र है, चपल है और आपके
 वहन रवेत है ॥ ८ ॥ आप प्रकाशित शरीर वालोंकी कान्ति हैं
 और सोमजीवी देवताओंके आप सोम है ६ अतः अब आप
 वरुथी (सेना वाले) वरुणके साथ जाइये और युद्धमें हम जिस
 मायासे जल रहे हैं उसका आप नारा करिये ॥ १० ॥
 सोमने कहा कि-हे देवराज! हेजगत्पते ! आप मुझमें युद्ध करने
 के लिये जो कह रहे हैं अनः लीजिये मैं दैत्यों की मायाको नष्ट

राज जगत्पते । एष वर्षापि शिशिरं दैत्यमायापुर्कर्षणम् ॥११॥
एतान्मच्छीननिर्दग्धान् पश्य त्वं हिमवेष्टितान् । विमायान्विमदां-
श्चैत्र दाननांस्त्वं महामृधे ॥ १२ ॥ वैशम्पायन उवाच । ततो
हिमकरोत्सृष्टाः सवाण्या हिमवृष्टयः । वेष्टयन्ति स्म तान् घोरान्
दैत्यान् मेघगणा इन ॥ १३ ॥ तौ पाशशुक्लांशुधरो बरुणेन्दू-
महारणे । जघ्नतुर्हिमपार्तेश्च पाशवातैश्च दानवान् ॥ १४ ॥ द्वा-
वम्बुनार्या समरे तौ पाशहिमयोधिर्ना । मृधे चेतुरम्भोभिः
क्षुब्धाविव महार्णवौ ॥ १५ ॥ ताभ्यामालावितं सैन्यं तद्दानव-
मदृश्यत । जगत्सम्भर्तकांभोदैः प्रवृष्टैरिव संवृतम् ॥१६॥ ताबुध-
तांशुपाशौ द्वौ शशांकवरुणौ रणे । शमयामामतुर्मायां देवौ दैतेय-
निर्मिताम् ॥ १७ ॥ शीतांशुजलनिर्दग्धाः पाशैश्च प्रसिता रणे ।

करने वाले शिशिरको बरसाता हूँ ॥११॥ आप शीघ्र ही इन
दैत्योंको पाले पड़नेसे शीतसे दग्ध हो मदरहित देखेंगे और
इनकी माया नष्ट हो जावेगी ॥१२॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-
उस समय चन्द्रमाकी झोडी हुई पालेकी फुहारोंने मेयोंकी समान
दैत्यों पर बरसना आरंभ कर दिया १३ इस समय महारणमें
शुक्र किरणोंको धारण करने वाले चन्द्रमा और पाशको धारण
करने वाले बरुण ये दोनों हिम गिरा कर और पाश मार कर
दानवोंका संहार करने लगे १४ पाश और हिमसे घुट्ट कराने वाले
दो जलनाथ बरुण और सोम क्षोभमें भरे हुए दो समुद्रोंकी
समान रणमें जलकी वर्षा करते हुए बिनरने लगे ॥ १५ ॥
उनसे डुबाई हुई दानवों की सेना प्रलयकाल में संवर्तक मेयोंसे
डुबाये जाते हुए जगत् की समान दीखने लगी १६ पाश और
किरणोंको उठाने वाले शशांक और बरुण नामके दोनों देवता
राक्षसों की रची हुई मायाका शमन करने लगे १७ शीतल
किरणों वाले चन्द्रमाके जलमें अकड़ने हुए और रणमें बरुणकी

न शेकुञ्चलितुं दैत्या विशिरस्का इवाद्रयः ॥ १८ ॥ शीताशु-
निहनास्ते तु पेतुर्दैत्या हिमादिताः । हिमपाट्टसर्वागा निरूपमाण
इव ग्नयः ॥ १९ ॥ तेषां तु दिवि दैत्यानां विपरीतप्रभाणि च ।
विमानानि विचित्राणि निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ २० ॥ तान् पाश-
हस्तग्रथिताश्च्छादितान् हिमरश्मिना । मयो ददर्श मायां वी
दानवान् दिवि दानवः ॥ २१ ॥ सशिलाजालविततां गण्डगैला-
ट्टहासिनीम् । पादपोत्कटकूटाग्रां कन्दराकीर्णकाननाम् ॥ २२ ॥
सिंहव्याघ्रगजाकीर्णां नन्दतीपिव्र यूथपैः । ईहामृगमणाकीर्णा-
पवनाघूर्णितद्रुमाम् ॥ २३ ॥ निर्मितां स्वेन पुत्रेण क्रौंचेन दिवि
कामगाम् । प्रसृतां पार्वती मायां ससृजे दानवोत्तमः ॥ २४ ॥
सारमशब्दैः शिलावर्षैः सम्पतद्भिश्च पादपैः । निजघ्ने देवसंघा-

पाशोंसे बंधे हुए दैत्य पत्तहीन पर्वतों की समान कुञ्च चेष्टा
न कर सके १८ शीतल किण्वोंवाले (चन्द्रमा) के ताड़न करने
पर जाड़ेसे अरुढ़ते हुए गर्भीरहित अग्नियोंकी समान शान्त
होने लगे । १९ ॥ तब तो स्वर्गमें दैत्योंके विचित्र विमान निष्प्रभ
से होकर गिरने लगे और उड्डलने लगे ॥ २० ॥ जब स्वर्गमें
मय दानवने दानवोंके चन्द्रमाकी किरणोंसे और बरुणके पाशों
से बंधा हुआ देवा और अपनी मृग्याको भी मष्ट होते हुए
देखा ॥ २१ ॥ तब उस दानवोत्तमने अपने पुत्र क्रौंचकी रची
हुई पार्वती मायाको फैलाया, उसमेंसे शिलाओंकी बौद्धारे पड़ने
लगीं और वह गण्ड—शैलोंसे अट्टहास करने लगी उसमें वृत्त
रूपी उत्कट शिखर लगे हुए थे और उसमें कन्दराओंसे पूर्ण
वन बने हुए थे २२ उसमें सिंह व्याघ्र और हाथी भर रहे थे और
उसमें हाथियोंकी चिंथाड़की समान शब्द होरहा था उसमें पशु-
ओंके चित्र विचित्र चित्र वन रहे थे और उसमेंके वृत्त आंधीसे
भँभोडे जा रहे थे २३-२४ उस समय मय दानव अड़ड़ शब्द

स्तान् दानवाश्चाप्यजीवयत् ॥२५॥ नैशाकरी वारुणी च माये-
 न्तर्दधतस्ततः । अश्मभिश्चायसघनैः किरन देवगणान् रणे २६
 सारथसंघातत्रिपमा द्रुमपर्वतसंकटा । अभवद्दोरसंचारा पृथिवी
 पर्वतैरिवा ॥२७॥ नानाहतोश्मभिः कश्चिच्छिलाभिश्चाथ ताडितः ।
 नानिरुद्धो द्रुमगणं देवोऽदृश्यत संयुगे ॥ २८ ॥ तदपभ्रष्टधनुषं
 भग्नप्रहरणाविलम् । निःप्रयत्नं सुरानीकं वर्जयित्वा गदाधरम्
 स हि युद्धगतः श्रीमानीशो न स्म व्यकम्पत । सहिष्णुत्वाज्जग-
 त्स्वामी न चुक्रोधगदाधरः ॥ ३० ॥ कालज्ञः कालमेवाभः समै-
 क्षत् कालमाह्वे । देवासुरविमर्दं स द्रष्टुकामो जनार्दनः ॥ ३१ ॥

के साग शिला और वृत्तोंको गिरा कर देवताओंकी टोलियोंको
 मारने लगा इससे दानवोंके चित्तमें कुछ बल आया २५ मय
 दानव वरुणकी और चन्द्रमाकी मायाको दना कर पत्थर और
 लोहेके घन देवताओं पर बरसाने लगा २६ जैसे पर्वतोंके कारण
 पृथ्वी पर चलना कठिन पड़ता है इसी प्रकार पत्थरोंके ढेरसे
 रणभूमि त्रिपप होगई और वृत्त तथा पर्वतोंके कारण उस पर
 चञ्जनेसे संकट पड़ने लगा २७ उस समय युद्धमें ऐसा कोई
 देवता नहीं दीखता था जिसके शरीर पर पत्थर न पड़े हों या
 बड़े २ पत्थर न पड़े हों और ऐसा भी कोई देवता नहीं दीखता
 था जिसके मार्गको वृत्तोंने न रोक रक्खा हो २८ उस समय
 केशवके अतिरिक्त देवसेनामेंसे और सबके धनुष छूट गए थे
 और सेनादल टूटे फूटे आयुधोंसे गदलासा होरहा था और सब
 सेना निश्चेष्ट सी पड़ी हुई थी २९ श्रीमान् प्रभु गदाधारी श्रीकृष्ण
 भी जगत्के स्वामी हैं सहिष्णु होनेके कारण उन्होंने उस समय
 भी क्रोध नहीं किया ॥ ३० ॥ कालमेघकी समान आभा वाले
 समयको पहचानने वाले श्रीकृष्ण समय की बात देखने लगे,
 जनार्दन श्रीकृष्ण देवता और असुरोंके संहारको देखना चाहते

ततो भगवनादिष्टौ रणे पावकमारुनी । शमनार्थं प्रवृद्धाया मायाया
मयसृष्टया ॥ ३२ ॥ ततः प्रवृद्धावन्योन्यं प्रवृद्धौ ज्वालवाहिनी ।
चोदितौ विष्णुवाक्येन तां मायां व्यपकषेताम् ३३ तदाभ्यामुद्ध्रान्त
वेगाभ्यां प्रवृद्धाभ्यां महाहवे । दग्धा सा पार्वती माया भस्मीभूता
ननाश ह ॥ ३४ ॥ सोऽनिलोऽनसंपुक्तः सोऽनलश्चानिलाकुलः ।
दैत्यसेनां ददहतुर्युगान्त इव मूर्च्छितौ ॥ ३५ ॥ वायुः प्रधानितस्तत्र
पश्चादग्निश्च मारुतात् । चरेतुर्दानवाणीके क्रीडन्तोवनला
निलौ ॥ ३६ ॥ भस्मानवयवभूतेषु प्रपत्सृत्पतत्सु च । दानवानां
विमानेषु कृतकर्मणि पावके ॥ ३७ ॥ चातस्कन्धापविद्धेषु विमा-
नेषु समन्ततः । मायाबन्धे विनिर्दृत्ते स्तूयमाने गदाधरे ॥ ३८ ॥
निष्पयत्नेषु दैत्येषु त्रैलोक्ये मुक्तबन्धने । संपहृष्टेषु देवेषु साधु

थे ३१ तदन्तर भगवान्ने मय दानवकी रची हुई बढ़ती हुई
मायाको शान्त करनेके लिये अग्नि और पवनको आज्ञादी ३२
तदनन्तर ज्वालाको बहाने वाले वे दोनों पावक और पवन
विष्णुकी आज्ञा पाकर उस मायाका संहार करने लगे ३३
उस पार्वती मायाको महायुद्धमें कोपमें भर कर बढ़ते हुए पावक
और पवनने भस्म कर डाला, तब वह नष्ट होगई ॥ ३४ ॥
वायुसे मिलता हुआ अग्नि और अग्निसे मिलती हुई वायु इन
दोनोंने प्रलयकालकी समान क्रोधमें भर कर दानव—सेनाको
भस्म करना आरम्भ कर दिया ॥ ३५ ॥ दानवोंकी सेनामें
पहिले तो आँधी चली फिर आग लग गई, इसप्रकार अग्नि और
पवन दानवोंकी सेनामें क्रीड़ासी करने लगे ॥ ३६ ॥ इसप्रकार
जब अग्निने अपना काम कर लिया तो दानवोंके विमान भस्म
होकर गिर गए और उनकी धूल उड़ने लगी ॥ ३७ ॥ और
पवनके झपाटेसे विमान टूट रकर गिरने लगे, इसप्रकार मायाके
दूर होने पर गदाधर श्रीकृष्णकी प्रशंसा होने लगी ॥ ३८ ॥

साध्विति सर्वशः ॥ ३६ ॥ जये दशशतान्तस्य मयस्य च परा-
जये । दिक्षु सर्वासु श्रद्दासु प्रवृत्ते धर्मसंस्तरे ॥ ४० ॥ अपावृत्ते
चन्द्रपथे अयनस्थे दिवाकरे । प्रकृतिस्थेषु लोकेषु नृषु चारित्र-
बन्धुषु ॥ ४१ ॥ अभिन्नबन्धने मृत्यो हूयमाने हुताशने । यज्ञ-
भागिषु देवेषु स्वर्गार्थं दर्शयत्सु च ॥ ४२ ॥ लोकपालेषु सर्वेषु
दिक्षु संगानवर्तिषु । भावे तपसि शुद्धानामभावे दुष्टकमिणाम्
देवपत्ते प्रमुदिते दैत्यपत्ते निपीदति । त्रिपादविग्रहे, धर्मं अधर्मं
पादविग्रहे ॥ ४४ ॥ अपावृत्ते महाद्वारे वर्तमाने च सत्पथे ।
स्वधर्मस्थेषु वर्णेषु लोकेऽस्मिन्नाश्रमेषु च ॥ ४५ ॥ प्रजारक्षण-

जब दानवोंके प्रयत्न निष्फल होगए और त्रिलोकीका बन्धन
जाता रहा और देवता प्रसन्न होकर साधु साधु कहने लगे ३६
सहस्र लोचन वाले इन्द्रकी जीत होगई और मय दानवका परा-
जय होगया, सब दिशाओंमें श्रद्धा और धर्म चलने लगा ४०
चन्द्रमाका मार्ग साफ होगया और सूर्य अपने अयनमें स्थित
होगए, मनुष्य प्रकृतिस्थ-स्वस्थ होगए, मनुष्य सदाचारसे प्रेम
करने लगे ॥ ४१ ॥ मृत्यु अपनी मर्यादामें चलने लगा, अग्निमें
होम होने लगा, देवता यज्ञोंमें भाग पाने लगे और वे (पूजा
करने पर) स्वर्गका मार्ग दिखाने लगे ॥ ४२ ॥ सब लोकपाल
अपनी २ दिशाओंमें निर्भय होकर विचरने लगे शुद्ध पुरुषोंका
तप करने पर अभ्युदय होने लगा और दुष्कर्मी पुरुषोंका कुर्म
करने पर नाश होने लगा ॥ ४३ ॥ देवताओंका दल प्रसन्न
होने लगा और दानवोंका पत्त खिन्न रहने लगा, धर्म त्रिपाद
में वर्तमान रहने लगा और अधर्मका एकपाद ही बाकी रह
गया ॥ ४४ ॥ मोक्षका द्वार खुलगया और सन्मार्गकी प्रवृत्ति
होने लगी और लोकमें मनुष्य अपने २ आश्रम और वर्ण धर्मका
पालन करने लगे ४५ और राजे प्रजा पालन कर शोभा पाने

युक्तेषु भ्राजमानेषु राजसु । गीयमानासु गाथासु देवसंस्तवना-
दिषु ॥४६॥ मशान्तकलुपे लोके शान्ते तपसि दाहणे । अग्नि-
मारुतयोस्तस्मिन् वृत्ते संग्रामकर्मणि । तन्मया विमला लोका-
स्ताभ्यां जयकृतप्रियाः ॥ ४७ ॥ पूर्वदेवभयं श्रुत्वा मारुताग्नि-
कृतं महत् । कालनेमिरिति ख्यातो दानवः प्रत्यदृश्यत ॥ ४८ ॥
भास्कराकारमुकुटः शिञ्जिताभरणांगदः । मन्दराचलसंकाशो
महारजतसंष्टतः ॥ ४९ ॥ शतप्रहरणोदग्रः शतबाहुः शताननः ।
शतशीर्षा स्थितः श्रीमान्छतशृङ्ग इवाचलाः ॥ ५० ॥ कक्षे महति
संवृद्धो हिमान्त इव पावकः ॥ ५१ ॥ धूम्रकेशो हरितश्मश्रु-
र्दंष्ट्रालोष्ठपुटाननः । त्रैलोक्यान्तरविस्तारी धारयन् विपुलं वपुः ५२
लगा देवताओंके स्तोत्र गाये जाने लगे ४६ लोगोंका कलुप शान्त
होगया और दारुण तप शान्त भावसे होने लगा, जब अग्नि और
पवनने अपना काम करके दिखा दिया तब वे ही लोकोंमें (पूजे
जाने लगे) और जीतनेके कारण वे मनुष्योंके पिय होगए इस
प्रकार संसार विमल होगया अर्थात् संसारमें शान्ति छा गई ४७
अग्नि और पवनने पूर्वदेव अर्थात् राजसों को बड़ा दवाया है
यह सुन कर कालनेमि नामसे प्रसिद्ध राजस प्रकट हुआ ॥४८॥
वह सूर्यकी समान आकारके मुकुटको पहिर रहा था और वह
शब्द करने वाले नूपुर लगे हुए बाजूबन्दोंको पहिर रहा था इस
प्रकार वह मन्दराचल की समान चोटीसे भर रहा था ॥ ४९ ॥
वह सौ आयुधोंको धारण करनेके कारण भयंकर हो रहा था
उसके सहस्र भुजाएँ थीं और सौ मुख थे और वह श्रीमान् अपने
सौ शिरोसे शतशृंग पर्वतकी समान खड़ा हुआ था ॥ ५० ॥
और वह ग्रीष्म ऋतुमें फूसमें लगे हुए पावककी समान दीख रहा
था ॥ ५१ ॥ उसके केश धुमैले थे और उसकी मूँछे नीली थीं
और उसकी हाड़े उसके ओठोंके बाहर निकल रही थी और

बाहुभिस्तुलयन् व्योम क्षिपन् पद्भ्यां महीधरान् । ईरयन्मुख-
निःश्वासैर्दृष्टिमन्तो बलाहकान् ॥ ५३ ॥ तिर्यगायतरक्ताक्षं
मन्दरोदग्रवर्चसम् । दिधक्षन्तमिवांयान्तं सर्वान् देवगणान् मृधे ५४
तर्जयन्तं सुरगणाश्च्छादयन्तं दिशो दश । सम्बर्तकाले क्षुधितं
दृप्तं मृत्युमिवोत्थितम् ॥ ५५ ॥ सुतलेनोच्छ्रितवता विपुलांगुलि-
पर्वणा । मान्याभरणपूर्णं किञ्चिच्चलितवर्मणा ॥ ५६ ॥ उच्छ्रिते-
नाग्रहस्तेन दक्षिणेन वपुष्मता । दानवान् देवनिहतानुत्तिष्ठध्व-
मिति ब्रुवन् ॥ ५७ ॥ तं कालनेमिं समरे द्विपतां कालसन्निभम् ।
वीक्षन्ति स्म सुराः सर्वे भयविकलवलोचनाः ५८ तं स्म वीक्षन्ति
भूतानि क्रमन्तं कालनेमिनम् । त्रिविक्रमं विक्रमन्तं नारायणमिवा-

उसका बड़ा भारी शरीर त्रिलोकीमें फैल रहा था ॥ ५२ ॥ वह
अपनी भुजाओंसे आकाशको तोलसा रहा था और अपने पैरों
से पर्वतोंको फेंक रहा था और साँस लेकर वर्षा करने वाले
मेघोंको चला रहा था ॥ ५३ ॥ उसके तिरछे नेत्रोंमें लाली ब्रू
रही थी और वह मन्दरोदग्रवर्चा (स्वर्गके इन्द्रकी समान कान्ति-
मान्) था और वह रणमें अमता हुआ ऐसा दीखता था मानो
सब देवताओंको भस्म करना चाह रहा है ॥ ५४ ॥ वह देव-
ताओंको धमकाने लगा और दशों दिशाओंको उठाये डालना था
और प्रलयकालके भूखे कालकी समान दीखता था ॥ ५५ ॥
उसकी हथेलिये उठी हुई थीं और उसकी अंगुलियोंकी गाँठें
बड़ी मोठी थीं और उसका कवच मालाके गहनोंसे कुछ रं हिल
रहा था ॥ ५६ ॥ वह अपने दक्षिण हाथकी अंगुलियोंको उठा
कर देवताओंकी मारसे गिरे हुए दानवोंसे कहने लगा, कि-उठो!
उठो !! ॥ ५७ ॥ शत्रुओंके लिये कालकी समान इस कालनेमिको
समरमें आते देख कर सब देवताओंके नेत्र भयके मारे डरे हुए
से हो गए ॥ ५८ ॥ देवताओंने कदम रख कर आते हुए कालनेमिको

परम् ॥ ५६ ॥ सोच्छ्रयन् प्रथमं पादं मारुताधूर्णिताम्बरः ।
 प्राकामदसुरो युद्धे त्रासयन् सर्वदेवताः ॥ ६० ॥ समयेनासुरेद्रेण
 परिष्वक्तः क्रमन् रणे । कालनेमिर्न गौ दैत्यः सविष्णुरिव मंदरः ६१
 अथ विन्ध्यधिरे देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः । दृष्ट्वा कालमिवायान्तं
 कालनेमिं भयावहम् ॥ ६२ ॥

इति श्रीमहाभारते श्विलेपु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

पट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

वैशम्पायन उवाच । दानवांश्चापि पिपीपुः कालनेमिर्महा-
 सुरः । व्यवर्धत महातेजास्तपान्ते जलदो यथा ॥ १ ॥ त्रैलोक्या-
 न्तर्गतं तं तु दृष्ट्वा ते दानवेश्वराः । उत्तथुरपरिश्रान्ताः प्राप्येवा-
 मृतमुत्तमम् ॥ २ ॥ ते भीता भयसन्वस्ता मयतारपुरोगमाः ।
 तारकामयसंग्रामे सततं जयकाशिनः । रेजुरायोधनगता दानवा

कदम रखते हुए विष्णुकी समान ही समझा ॥ ५६ ॥ जिस
 समय उसने पहिला कदम रखा उस समय उसकी धमकसे वायुसे
 आकाश भर गया इस प्रकार कदम रख कर वह असुर सब
 देवताओंको त्रास देने लगा ॥ ६० ॥ रणमें टहलते २ वह भय
 दानवके पास आ उससे चिपट गया उस समय वह मन्दराचलसे
 मिलते हुए विष्णुकी समान शोभा पाने लगा ॥ ६१ ॥ उस समय
 इन्द्र आदि देवता कालकी समान भय देने वाले कालनेमिको आते
 देख कर डरने लगे ॥ ६२ ॥ छिपालीसवाँ अध्याय समाप्त ४६

वैशम्पायनजीने कहा, कि-महातेजस्वी कालनेमि नामक महा-
 राजस दानवोंको पुष्ट करनेकी इच्छासे बर्षा अनुमें उठने वाले
 मेघकी समान उठा(बढ़ा) ॥१॥ कालनेमिको तीनों लोकोंमें फैला
 हुआ देखकर वे दानवराज मानो अमृत मिल गया हो इस प्रकार
 परिश्रमरहित हो उठ खड़े हुए ॥ २ ॥ इससमय भय तार आदि
 का भय और सन्वास दूर होगया था और वे तारकाय संग्राममें

युद्धकांक्षिणः ॥ ३ ॥ अस्त्रमभ्यस्यतां तेषां व्यूहं च परिधाव-
ताम् । मेत्ततां चाभवत् प्रीतिर्दानवं कालनेमिनम् ॥ ४ ॥ ये तु
तत्र मयस्यासन् मुख्या युद्धपुरःमराः । तेऽपि सर्वे भयं त्यक्त्वा
हृष्टा योद्धुमुपस्थिताः ॥ ५ ॥ मयस्तागे वराहश्च हयग्रीवश्च
वीर्यवान् । विप्रचित्तिमुतः श्वेतः खरलंघायुभावपि ॥ ६ ॥ अरिष्टो
वलिपुत्रस्तु किशोरोष्ठौ तथैव च । स्वर्भानुश्चामरप्रख्यो वक्र-
योधी महाबलः ॥ ७ ॥ एतेऽस्त्रविदुषः सर्वे सर्वो तपसि सुव्रताः ।
दानवाः कृतिनो जग्मुः कालनेमिनमुत्तमम् ॥ ८ ॥ ते गदाभिश्च गुर्वी-
भिश्चक्रैश्च सपरश्वधैः । अश्मभिश्चाद्रिसदृशैर्गण्डशैलैश्च दंशिनैः ६
पट्टिशैर्गण्डिपालैश्च परिवैश्चोत्तमायुधैः । घातनीभिश्च गुर्वीभिः
शतघ्नीभिस्तथैव च ॥ १० ॥ कालरूपैश्च मुसलैः क्षेपणीयैश्च
सुदरैः । युगैर्यन्त्रैश्च निर्मुक्तैरर्गलैश्चाप्रताडितैः ॥ ११ ॥ दोर्भि-
श्चायतपीनांसैः पाशैः प्रासैश्च मूर्च्छितैः । सपैलेलिह्यमानैश्च
विसर्पद्विश्च सायकैः ॥ १२ ॥ वज्रैः प्रहरणीयैश्च दीप्यमानैश्च

जयकी इच्छा कर दमरुने लगे और वे दानव युद्धकी आंकाक्षासे
युद्धस्थलमें आ परम शोभा पाने लगे ३ वे कालनेमि दानवको
देख प्रसन्न हो अस्त्रोंको उद्यालने लगे और व्यूहमें शेर करने
लगे ४ उस समय मयके मुख्य २ सेनापति भी भय त्याग कर
हर्षित होते हुए युद्ध करनेके लिये डट गए ५ श्रेष्ठ कालनेमिके
पास मय तार वराह वीर्यवान् हयग्रीव विप्रचित्तिका पुत्र श्वेत खर
और लम्ब वलिका पुत्र अरिष्ट किशोर उष्ट्र देवनाकी समान
प्रसिद्ध स्वर्भानु और महाबली वक्रयोधी ये सब अस्त्रवेत्ता और
तप करने वाले पुण्यवान् दानव पहुँच गए ॥ ६-८ ॥ वे सब
दीप्त मन वाले और श्रेष्ठ आयुओंको धारण करने वाले दानव
हाथमें बड़ी २ गदा चक्र फरसा पहाड़की समान पत्थर धिसे
हूए गएडरील पट्टिश भिन्दिपाल परिव श्रेष्ठ २ आयुध कातिल

तोमरैः । विक्रीशैश्चासिभिस्तीक्ष्णैः शुल्कीश्च शितनिर्मजैः १३
 ते वा संदीप्तगनसः प्रष्टुहीनोत्तमायुधाः कालनेमिं पुरस्कृत्य तस्थुः
 संग्राममूर्धनि ॥ १४ ॥ सा दीप्तशस्त्रमवरा दैत्यानां शुशुभे चम्पूः ।
 द्यौर्निमीलितनक्षत्रा सघनेवाम्बुदागमे ॥ १५ ॥ देवतानामपि चमू
 रुरुचे शरूपुलिता दीप्ता शीतोष्णतेजोभ्यां चन्द्रभास्करवर्चसा १६
 वायुवेगवती सीम्या तारागणपताकिनी । तोयदाविद्धवसना
 ग्रहनक्षत्रहासिनी ॥ १७ ॥ यमैर्द्रधनदैर्गुप्ता वरुणेन च धीमता ।
 संपदीप्ताग्निपवना नारायणपरायणा ॥ १८ ॥ सा समुद्रौघ-
 सदृशी दिव्या देवमहाचमूः । रराजास्त्रवती भीमा यज्ञगन्धर्व-

और भारी चन्द्रक कालकी समान मूसल गोंफनी सुदूर धुरे
 यन्त्र डंडेले लेकर तथा लम्बी और मोटी २ भुजाओंसे प्राप्त
 पाश जीभ लपलपाते सर्प और बाण वज्र मारनेके चमकते हुए
 तोमर नङ्गी तेज तलवार और घिसनेके कारण चमकते हुए
 शुल्कीके लेकर संग्राममें डट गए ॥ १६-१४ ॥ उस समय चमकते
 हुए अस्त्र शस्त्रोंके धारण करनेवाली दानवोंकी श्रेष्ठ सेना
 वर्षाकालमें जिन्होंने (देवरूप) नक्षत्रोंको ढक दिया हो ऐसे
 मेघोंवाले आकाशकी समान शोभा पाने लगी ॥ १५ ॥ इधर
 इन्द्रके रक्षा करने पर देवताओंकी सेना भी खिल रही थी और
 चन्द्रमा तथा सूर्यके शीत और उष्ण तेजसे दिग्ग रही थी १६
 उसमें मन्द २ वायु चल रहा था और उसमें नक्षत्ररूप भ्रंशडे
 फहरा रहे थे और वह ग्रह तथा नक्षत्रोंसे हँस रही थी और
 मेघ उसके वस्त्रोंको छ २ जाते थे ॥ १७ ॥ यमराज देवराज
 और राजराज (कुवेर) उसकी रक्षा कर रहे थे और बुद्धिमान
 वरुण भी उसकी रक्षा कर रहे थे उसमें प्रदीप्त तेज वाले अग्नि
 और पवन विद्यमान थे और वह सेना नारायणका भरोसा
 रखती थी ॥ १८ ॥ वह समुद्रके औघ (प्रवाह) की समान

शालिनी ॥ १६ ॥ तयोरचम्बोस्तदा तत्र बभूव स समागमः ।
 द्यावापृथिव्योः संयोगो यथा स्याद्युगपर्यये ॥ २० ॥ तद्युद्धमभ-
 च्छोरं देवदानवसंकुलम् । क्षमापराक्रममयं दर्पस्य विनयस्य च २१
 निश्चक्रमुर्वलाभ्यां तु ताभ्यां भीमाः सुरासुराः । पूर्वापराभ्यां
 संख्याः सागराभ्यामिवाम्बुदाः ॥ २२ ॥ ताभ्यां बलाभ्यां
 संहृष्टाचेरुस्ने देवदानवाः । वनाभ्यां पार्वतीयाभ्यां पुष्पिताभ्यां
 यथा गजाः ॥ २३ ॥ समाजग्मुस्ततो भेरीः शंखान् दध्मुश्च
 नैकशः । स शब्दो द्यां भुवं चैव दिशश्च समपूरयत् ॥ २४ ॥
 ज्याघाततलनिर्घोषो धनुषां कूजितानि च । दुन्दुभीनां निनदतां
 दैत्यानां निर्दधुः स्वनान् ॥ २५ ॥ तेऽन्योन्ममभिसंपेतुः पात-

देवताओंकी दिव्य सेना यत्त और गन्धर्वोंसे शोभा पारही थी १६
 वह दोनों सेनाएँ प्रलयकालमें मिलते हुए पृथ्वी और, आकाश
 की समान (घोररूपसे) भिड़ गई ॥ २० ॥ उस घोर युद्धमें
 देवता और दानव व्याकुल होने लगे, देवता घमण्डी दानवों
 पर क्षमापूर्वक प्रहार करते थे और दानव विनयी देवताओं पर
 प्रहार करनेके बाद क्षमा करते थे ॥ २१ ॥ जिसप्रकार पूर्व और
 पश्चिमके समुद्रसे क्रोधमें भरे हुए बादल उठते हैं इसीप्रकार उन
 देव दानवोंकी सेनामेंसे निर्भय देवता और दानव निकलने
 लगे ॥ २२ ॥ जैसे फूलोंसे लदे हुए वृक्षोंवाले दो पहाड़ी वनोंमें
 से निकल कर हाथी फिरते हैं इसी प्रकार वे देव दानव हर्षमें
 भरकर उन दोनों सेनाओंमेंसे निकल कर (युद्ध-) क्रीड़ा
 करने लगे ॥ २३ ॥ वे दुन्दुभियों और शंखोंको लेकर बजाने
 लगे, उस शब्दसे पृथ्वी आकाश तथा सब दिशाएँ भर गई २४
 (देवताओंके) प्रत्यञ्चाके घोष और धनुषके चर चर शब्दसे
 तथा बजती हुई दुन्दुभियोंके शब्दसे दानवोंका शब्द दब गया २५
 वे दोनों आपसमें भिड़ गए और द्ब युद्ध करने परु दूसरेको

यन्तः परस्परम् । धर्मजुर्वाहुभिर्वाहून् द्वन्द्वग्नये युगुत्सवः ॥२८॥
 देवतास्त्वशनिर्घोराः परिघोरचोत्तमायसान् ससर्जुराजौ निस्त्रि-
 शान् गदा गुर्वीश्च दानवाः ॥२७॥ गदानिपातैर्भग्नांगा वाणैश्च
 शकलीकृताः । परिपेतुर्भृशं केचिन्न्युज्जाः * केचित् ससर्जिरे २८
 ततो रथैः सत्पुरगैर्विमानैश्चाशुगामिभिः । समीयुस्ते तु संख्या
 रोषादन्योन्यमाहवे ॥ २९ ॥ संवर्तमानाः समरे विवर्ततस्तथा
 परैः । रथा रथैर्निरुध्यन्ते पदाताश्च पदातिभिः ॥ ३० ॥ तेषां
 रथानां तुमुलः स शब्दः शब्दवाहिनाम् । बभूवाथ प्रसक्तानां
 नभसीव पयोमुचाम् ॥ ३१ ॥ धर्मजिरे रथान् केचित् केचित्
 संमृदिता रथैः । सम्बाधमेके संपाप्य न शेकुरचलितुं रथाः ३२
 अन्योन्यस्याभिसमरे दोर्भ्यामुत्तिष्ठ्य दर्पिताः । संहृदमाना-

गिराकर अपनी भुजाओंसे दूसरेकी भुजाओंको उखाड़ने लगे २६
 देवता युद्धमें अशनि भयंकर परिघ और लोहेके शस्त्रोंका उप-
 योग करने लगे और दानव तलवार और भारी गदायें घुमाने
 लगे ॥२७॥ उस समय बहुतसोंके शरीर गदाकी चोटसे घायल
 हो गए और उनके बाणोंसे धुरें उड़ गए, कोईर धड़ामसे गिर गए
 और कोई औंधे होकर गिर पड़े ॥२८॥ तदनन्तर वे सब कोपमें
 भरकर रथ घोंड़े और शीघ्रगामी विमानोंमें बैठकर आनेलगे २९
 सन्मुख आनेवाले और भागते हुए रथियोंको और पैदलोंको
 दूसरे रथी वा पैदल आकर रोक लेते थे ॥ ३० ॥ जैसे श्रावण
 के बादल आकाशमें गड़गड़ाते हैं, इसीप्रकार भनभन कर
 चलनेवाले रथोंका तुमुल शब्द होने लगा ॥ ३१ ॥ उनमेंसे
 बहुतसे योधाओंने रथोंको तोड़ डाला और बहुतसे रथोंसे कुचल
 गए और बहुतके रथ अडजाने पर टससे मस न हुए ॥ ३२ ॥
 तलवार और ढालवाले सैनिक समरमें दर्पमें भरकर अपनी
 भुजाओंसे दूसरे योधाओंको उठाकर फेंक देते थे, उस समय उनकी

भरणा जन्तुस्तत्रासिचर्मिणः ॥ ३३ ॥ शस्त्रैरन्ये विनिर्भिन्ना
 रक्तं वेमुहता युधि । क्षरज्जलानां सदृशा जलदानां समागमे ३४
 तदस्त्रशस्त्रप्रथितं क्षित्तिस्तिस्रगदाविलम् । देवदानवसंनुव्धं संकुलं
 युद्धमावभौ ॥ ३५ ॥ तद्दानवमहामेघं देवायुधुतडित्प्रभम् । अन्योन्य-
 चाणवर्षन्तं युद्धं दुर्दिनमावभौ ॥ ३६ ॥ एतस्मिन्नंतरे क्रुद्धः काल-
 नेमिर्महासुरः । व्यवर्षत समुद्रौघैः पूर्यमाण इवाम्बुदः ॥ ३७ ॥
 तस्य विश्रुच्चलापीडाः प्रदीप्ताशनिवर्षिणः । गात्रे नगशिरप्रख्या
 विनिष्पेषुर्बलाहकाः ॥ ३८ ॥ क्रोधान्निःश्वसतस्तस्य भ्रूभेदस्वेद-
 वर्षिणः । साग्निनिष्पेषपवना मुखान्निश्चेद्वरर्षिषः ॥ ३९ ॥

भुजाओंके गहने भी वजने लगते थे ॥ ३३ ॥ जैसे बादल धिरकर
 वर्षा बरसाने लगते हैं, इसी प्रकार योधा भी शस्त्रोंसे घायल होने
 पर रक्त ओकने लगे ॥ ३४ ॥ इस समय उस युद्धमें अस्त्र गोंठे-
 जाने लगे और योधाओंने गदा फेंक कर उस युद्धमें मडवडी
 डाल दी तथा बहुतसे योधा उसमें गदा घुमाने लगे इस प्रकार, वह
 देवदानवोंका युद्ध घोररूप धारण करने लगा । ३५ । वह दानव
 रूपी महामेघवाला और देवताओंके आयुधरूपी विजलीकी चमक
 वाला आपसमें चाण बरसाता हुआ युद्धरूपी दुर्दिन शोभा देने
 लगा ३६ इसी समय क्रोधमें भरा हुआ कालनेमि नामक राक्षस
 समुद्रके जलसे बढ़ते हुए बादलोंकी समान बढ़ने लगा ॥ ३७ ॥
 जलनी हुई अशनियोंके बरसानेवाले और चमकती हुई (आयुध-
 रूप) विजलियोंवाले (सेनादलरूप) पर्वतके शिखरकी समान
 मेघ कालिनेमके शरीरसे टकराते ही चूर्ण २ होजाते थे ३८
 जिस समय वह क्रोधमें भरकर श्वास लेता था, उस समय उसकी
 भाँपर बल पड़नेसे पर्साभा टपकने लगता था और उसके मुखमें
 से पवनसे मिली हुई अग्निकी लपट निकलती थी (अर्थात् वह
 विजली चमकानेवाले और जल बरसानेवाले मेघसा दीखता

तिर्यगूर्ध्वं च गगने वज्रधुस्तस्य बाहवः । पञ्चास्थाः कृष्णवपुषो
 लेलिहाना इवोरगाः ॥ ४० ॥ सोऽन्नजावीर्बहुविधैर्धनुभिः परिवै-
 रपि । दिव्यीराकाशमावन्ने पर्वतैरुच्छ्रितैरिव ॥ ४१ ॥ सोऽनि-
 लोद्भूतवसनस्तस्थी संग्राममूर्धनि । संध्यातपग्रस्तशिखः साक्षा-
 न्मेधरिवाचलः ॥ ४२ ॥ ऊरुवेगप्रतिक्रिप्तैः शैलशृंगाप्रपादपैः ।
 अपातपद्मे वगणान् वज्रेणैव महागिरीन् ॥ ४३ ॥ बाहुभिः शस्त्र-
 निस्त्रिशैरिन्नभिन्नशिरोरसः । न शक्नुश्चलितुं देवाः कालनेमि-
 हता युधि ॥ ४४ ॥ मुष्टिभिर्निहताः केचित् केचिच्च विदलीकृताः ।
 यत्नगन्धर्वपतयः पेतुः सह महोरगैः ॥ ४५ ॥ तेन विश्रासिता
 देवाः समरे कालनेमिना । न शक्नुयन्वन्तोपि प्रतिकर्तुं
 विचेतसः ॥ ४६ ॥ तेन शक्रः सहस्राक्षः स्तम्भितः शरवन्धनैः ।

धा) ३६ उसकी भुजायें आकाशमें तिरछी और ऊपरको घूमने
 लगीं, उस समय वह पाँच मुखवाले जीभ लपलपाते हुए काले
 सर्पोंकी समान प्रतीत होती थीं ४० जैसे पर्वत ऊपरको उठकर
 आकाशको आ लेते हैं इसीप्रकार उसने नाना प्रकारके दिव्य
 अस्त्र धनुष और परिशोंको उधालकर आकाशको आदिया ४१
 पवनसे जिसका वस्त्र उड़ रहा था वह कालनेमि संध्याकालकी
 धूपसे घिरे हुए शिखरवाले मेरुपर्वतकी समान संग्रामके मुहाने पर
 दृष्ट रहा था ॥ ४२ ॥ वह अपनी जंघाओंसे पर्वतोंके शिखर
 और पेड़ोंको फेंक कर जैसे वज्रसे पर्वत दाये जाते हैं, तिस
 प्रकार देवताओंको दाने लगा ॥ ४३ ॥ युद्धमें कालनेमिके हाथसे
 शस्त्र और तलवारोंसे शिर और हृदयके घायल होने पर देव-
 ताओंमें हिलने डुलनेकी भी शक्ति न रही ॥ ४४ ॥ यत्न और
 गन्धर्वपति तथा वड़ेसर्प कालनेमिके घूँसे खाकर और विशीर्ण
 होकर गिरने लगे ॥ ४५ ॥ जब समरमें कालनेमिने देवताओंको
 इस प्रकार पीटा तब उनका मन उदास होगया और वह समर्थ

ऐरावतगतः संख्ये चलितुं न शशाक ह ॥४७॥ निर्जलांभोद-
सदृशो निर्जलार्णवसप्रभुः।निर्व्यापारः कृतस्तेन विपाशो वरुणो
मृधे ॥ ४८ ॥ रणे वैश्रवणस्तेन परिवैः कालरूपिभिः । व्यल-
पत्नोरूपालेशस्त्याजितो धनदक्रियाम् ॥ ४९ ॥ यमः सर्वहर-
स्तेन दण्डप्रहरणो रणे । याम्यापवस्थां समरे नीतः स्वां दिश-
माविशत् ॥५०॥ स लोरूपालानुत्साद्य कृत्वा तेषां च कर्म तत् ।
दिक्षु सर्वासु देहं स्वं चतुर्धा विदधे तदा ॥ ५१ ॥ स नक्षत्र-
पथं गत्वा दिव्यं स्वर्भानुदर्शितम् । जहार लक्ष्मीं सोमस्य तं
चास्य विषयं महत् ॥ ५२ ॥ चालयामास शीतांशुं स्वर्गद्वाराच्च

होने पर भी कुछ न कर सके ॥ ४६ ॥ उसने वाणोंका जाल
पूर कर सहस्रात्त इन्द्रको घेरमें डाल दिया, उस समय ऐरावत
पर बैठो हुआ इन्द्र चल न सका ॥ ४७ ॥ उसने वरुणके पाश
को छीन लिया उस समय वरुण निर्जल मेघकी समान होगए
और उनकी आभा भी जलरहित (रवेत) मेघकी समान (फीकी)
पड़ गई और वह कुछ व्यापार (चेष्टा) न कर सके ॥ ४८ ॥
और जब उसने लोरूपाल वरुणके कालकी समान पाश मारे
तब तो वरुण विलाप करने लगे और उन्होंने कुवेरका काम
करना छोड़ दिया ॥ ४९ ॥ और उसने रणमें सर्वहारी तथा
दण्डका महार करनेवाले यमराजको भी याम्या दशामें लाडला
था अर्थात् उसको अपने आप यमराज बन कर दण्ड दिया था
तब वह दक्षिण दिशामेंको चला गया ॥ ५० ॥ उसने इस
प्रकार सब लोरूपालोंको पीट कर अपने शरीरको चार
भागोंमें विभक्त किया और अपने आप उनके काम करने लगा ५१
वह राहुके कहने पर नक्षत्रमार्गसे चन्द्रमाके पास पहुँचा और
उसही लक्ष्मी तथा उसके पदको छीन लिया ॥ ५२ ॥ उसने
स्वर्गद्वारसे चन्द्रमा और सूर्यको ढरेल दिया और उनके

भास्करम् । सायनं चास्य विषयं जहार दिनकर्म च ॥ ५३ ॥
 सोऽग्निं देवमुखे दृष्ट्वा चकारात्ममुखे स्वगम् । वायुं च तरसा
 जित्वा चकारात्मवशात्तुगम् ॥ ५४ ॥ स समुद्रात् समानीय
 सर्वाश्च सरितो बलात्त्राचकारात्मवशे वीर्याद्देहभूताश्च सिंघवः ५५
 अपः स्ववशगाः कृत्वा दिविजा याश्च भूमिजाः । स्थापयामास
 जगतीं सुगुप्तां धरणीधरैः ॥ ५६ ॥ स स्वयंभूरिवाभाति महा-
 भूतपतिर्महान् । सर्वलोकमयो दैत्यः सर्वलोकभयावहः ॥ ५७ ॥
 सलोकपालैकवपुश्चन्द्रसूर्यग्रहात्मवान् । पावकानिलसंघातो ररान
 युधि दानवः ॥ ५८ ॥ पारमेष्ठ्ये स्थितः स्थाने लोकानां प्रपवा-
 त्यये । तुष्टुचस्तं दैत्यगणा देवा इव पितामहम् ॥ ५९ ॥

सायन और दिनकर्मकी अपने आप करने लगा ॥ ५३ ॥
 उसने अग्निको देवताओंके मुखमें देख कर अपने ही मुखमें धर
 लिया और उसने वायुको चलपूर्वक जीत कर अपने वशमें कर
 लिया ॥ ५४ ॥ उसने समुद्रमेंसे सब नदियोंको बुलवा कर चल-
 पूर्वक अपने वशमें कर लिया और शरीरधारिणी नदियोंको भी
 अपने वशमें कर लिया ॥ ५५ ॥ जो जल भूमिमें है और जो
 जल स्वर्गमें हैं उन सबको अपने वशमें करके वह सर्पोंसे पृथ्वी
 को धारण करा कर उसका पालन करने लगा ॥ ५६ ॥ सब
 लोकोंको भय देने वाला और (पञ्च) महाभूतोंका पति तथा
 सब लोकोंमें व्याप्त वह दैत्य स्वयंभू (ब्रह्मा) की समान शोभा
 पाने लगा ॥ ५७ ॥ वह दानव सब लोकपालोंका एक शरीर
 से ही काम करने लगा और चन्द्र सूर्य तथा ग्रहोंमें अपने शरीर
 से काम करने लगा और पावक तथा अनिलका संघात धारक
 वह असुर-युद्धमें शोभा पाने लगा ॥ ५८ ॥ वह लोकोंका संहार
 और रचना करने वाले परमेष्ठी (ब्रह्मा) के स्थान पर प्रतिष्ठित
 होगया तब दैत्य पितामहकी समान उसकी स्तुति करने लगे ५९

वैशम्पायन उवाचाच । पञ्च तं नाभ्यवर्तन्त विपरीतेन कर्मणा ।
 वेदो धर्मः क्षमा सत्यं श्रीश्च नारायणाश्रया ॥ १ ॥ स तेषा-
 मनुपस्थानात् सक्रोधो दानवेश्वरः । वैष्णवं पदमन्विच्छन् ययौ
 नारायणान्तिकम् ॥ २ ॥ स ददर्श सुवर्णस्थं शंखचक्रगदाधरम् ।
 दानवानां विनाशाय भ्रापयन्तं गदां शुभाम् ॥ ३ ॥ सजलाभोद-
 महशं विद्युत्सदृशवाससम् । स्वाखण्डं स्वर्णपत्राढ्यं शिखिनं
 कार्मणं खगम् ॥ ४ ॥ दृष्ट्वा दैत्यविनाशाय रणे सुस्थमवस्थि-
 तम् । दानवो विष्णुमत्तोभ्यं वभापे जुब्धमानसः ॥ ५ ॥ अयं
 स रिपुरस्माकं पूर्वोपां दानवर्षिणाम् । अर्णवावासिनश्चैव
 मधोर्वै कैटभस्य च ॥ ६ ॥ अयं स विग्रहोऽस्माकमशाम्यः किल

वैशंपायनजी बोले कि—विपरीत (असात्विक) कर्मके कारण
 वेद धर्म क्षमा सत्य और नारायणके आश्रयसे रहने वाली लक्ष्मी
 ये पाँच उसके पास नहीं आये १ वेद आदिके न आनेसे वह
 दानवेश्वर क्रोधमें भर गया और वैष्णव पदको प्राप्त करनेकी
 इच्छासे विष्णुके पास चला २ तहाँ उसने नारायणको शंख
 चक्र और गदा धारण कर गरुड पर बैठे हुए देखा वह दानवों
 का नाश करनेके लिये शुभ गदाको घुमा रहे थे ॥ ३ ॥ उनकी
 कान्ति जलसे भरे हुए भेषकी समान दमक रही थी और उनका
 वस्त्र निजलीकी समान चमकदार था और वह कश्यपपुत्र सुवर्णके
 पत्र वाले गरुडपत्नी पर अच्छी प्रकार चढ़े हुए थे ॥ ४ ॥
 वह दैत्योंका विनाश करनेके लिये स्वस्थ चित्तसे खड़े (विचार
 कर रहे) ये यह देख कर किसीसे क्षोभ न पाने वाले विष्णुके
 (सामने) मनमें जुब्ध होकर उस दानवने कहा कि— ५ यह
 हमारे पहिले दानवर्षियोंका शत्रु है और यह समुद्रमें रहने वाले
 मधु और कैटभका भी शत्रु है ६ यह बात प्रसिद्ध है कि—दानव
 सपरमें इसको ही नहीं मार सकते, इसने पहिले युद्धमें हमारे

कथ्यते । येन नः संयुगेवाद्या बहवो दानवा इताः ॥ ७ ॥ अयं
 स निर्घृणो युद्धेस्त्री बालनिरपत्रयः येन दानवनारीणां सीमंतो-
 द्दरणं कृतम् ॥ ८ ॥ अयं स विष्णुर्देवानां वीकुण्ठश्च दिवौ-
 कसाम् । अनन्तो भोगिनामसु स्वयम्भूश्च स्वयंभुवः ॥ ९ ॥
 अयं सनाथो देवानामस्माकं विप्रिये स्थितः अस्य क्रोधेन महता
 हिरण्यकशिपुर्हतः ॥ १० ॥ अस्य द्वार्या समासाद्य देवा मख-
 मुखे स्थिताः । आज्यं महर्षिभिर्दत्तमरजुवन्ति त्रिधा हुनम् ११
 अयं स निधने हेतुः सर्वेषां देवविद्विषाम् । यस्य तेजः प्रविष्टानि
 कुलान्यस्माकमाहवे ॥ १२ ॥ अयं स किल युद्धेषु सुरार्थे त्यक्त-
 जीवितः । सवितुस्तेजसा तुल्यं चक्रं क्षिपति शत्रुषु ॥ १३ ॥
 अयं स कालो दैत्यानां कालभूते मणि स्थिते । अतिक्रान्तस्य

बहुतसे दानवोंको मार डाला है ७ यह युद्धमें निन्द्य होनाता है
 यह अन्नभारी है और यह बालककी समान निर्लज्ज भी है इसने
 दानवोंकी स्त्रियोंके केश मुँडवा दिये थे ८ (अदितिके पुत्र)
 देवताओंमेंका विष्णु (वामन) यही है और यह (वसु रुद्र आदि)
 वीकुण्ठमें रहने वालोंका वीकुण्ठ है अर्थात् कल्पान्तमें भी इनका
 धाम अकुण्ठित रहता है, यह सर्पोंमें अनन्तस्वरूप है और यह
 ब्रह्माका भी ब्रह्मा है ॥९॥ देवता इससे सनाथ रहते हैं और
 यह हमारी बुराई ही करता रहता है, इसके परम क्रोध करनेपर
 हिरण्यकशिपु मारा गया था १० देवता इसके पत्तकी आश्रय
 कर यज्ञके मुख (अग्नि) में महर्षियोंके होमे हुए (नित्य नैमि-
 त्तिक और काम्य इन) तीन प्रकारके आज्यको खाते हैं ११
 यही सब देवदेवियोंको मारनेमें मुख्य है, युद्धमें हमारे कुल इस
 के तेजमें ही समा जाते हैं १२ यह देवताओंके लिये अपने प्राणों
 का भी मोह छोड़ कर युद्ध करता है और यह । सूर्यकी समान
 तेजस्वी चक्र शत्रुओं पर छोड़ता है १३ यह दैत्योंका कालरूप

कालस्य फलं प्राप्स्यति दुर्मतिः ॥ १४ ॥ दिष्ट्येदानीं समक्षं मे
 विष्णुरेव समागतः अथ मद्भाणनिष्पिष्टो मामेव प्रणमिष्यति १५
 यास्याम्यपचितिं दिष्ट्या पूर्वेषामथ संयुगे । इमं नारायणं हत्वा
 दानवानां भयावहम् ॥ १६ ॥ त्तिप्रमेव वविष्णामि रणे नारा-
 यणाश्रितान् । जात्यन्तरगतोऽप्येव मृधे वाधति दानवान् ॥ १७ ॥
 एषोऽनन्तः पुरा भूत्वा एञ्जनाभ इति स्मृतः । जघानैकार्णवे
 घोरे तावुभौ मधुकैटभौ । विनिवेश्य स्वके ऊरौ निहती दान-
 वेश्वरौ ॥ १८ ॥ द्विधा भूतं वपुः कृत्वा सिंहार्धं नरसंस्थितम् ।
 पितरं मे जघानैको हिरण्यकशिपुं पुरा ॥ १९ ॥ शुभं गर्भम-
 भ्रत्तेममादितिर्देवतारणिः । यज्ञकाले बलेर्षोर्वा कृत्वा वानेनरूप-

है, परन्तु यह मुझ कालरूपके हाथसे (दैत्योंके वध रूप)
 मर्यादाका उल्लंघन करनेके फलको पावेगा अर्थात् मैं इसको
 मार डालूँगा १४ यह विष्णु प्रारब्धवश ही मेरे सामने पड़ गया
 है, मेरे बाणोंसे पीड़ा पाकर यह आजही मुझे प्रणाम करेगा १५
 मैं दानवोंको भय देने वाले इस नारायणको मार कर आज
 पहिले युद्धोंमें (मारे गए) राज्ञसोंको सन्तुष्ट करूँगा ॥ १६ ॥
 मैं नारायणका आश्रय लेने वालोंको रणमें मार डालूँगा, यह तो
 (मत्स्य आदि) दूसरी जातिके रूपको धारण कर भी राज्ञसों
 को मार डालना है ॥ १७ ॥ यह आकाशकी समान व्यापक
 थे तब भी इन्होंने एञ्जनाभ होकर एपञ्जनाभ नाम पाया था, इसने
 जलमय समुद्रमें दानवेश्वर मधु और कैटभको अपनी जाँघ पर
 रखकर - मार डाला था ॥ १८ ॥ और इसने अपने शरीरको
 आधा सिंह और आधा मनुष्य इस प्रकार दो प्रकारका करते मेरे
 पिता हिरण्यकशिपुको भी पहिले मार डाला था ॥ १९ ॥
 देवताओंकी अरणि (उत्पत्तिस्थान) अदितिने इसके शुभ गर्भ
 को धारण किया था सने बलिके यज्ञके समय अपने रूपको

ताम् । त्रींश्लोकांना जहारैकः क्रममाणस्त्रिभिः क्रमैः ॥ २० ॥
 भूयस्त्विदानीं सगरे संप्राप्ते तारकामये । मया सह समागम्य
 सह देवैर्विनन्दयति ॥ २१ ॥ स एवमुक्त्वा बहुया क्षिपन्नारा-
 यणं रणे । वामिभरप्रतिरूपाभिर्युद्धमेवाभ्यरोनयत् ॥ २२ ॥ क्षिप्य-
 माणोऽमुरेन्द्रेण न चुकोप गदाधरः । क्षमात्रलेन महता सस्मितं
 वाक्यमब्रवीत् ॥ २३ ॥ अल्पदर्पवलो दैत्यः स्थितः क्रोधादसद्-
 दन् । इतस्त्वमात्मनो दोषीः क्षमां योऽनीत्य भाषसे ॥ २४ ॥
 अथमस्त्वं मम मतो धिगेतत्तव वाग्बलम् । न तत्र पुरुषाः सन्ति
 यत्र गर्जन्ति योषितः ॥ २५ ॥ अहं त्वां दैत्य पश्यामि पूर्वोपां
 मार्गगाभिनाम् । प्रजापतिकृतं सेतुं को भित्त्वा स्वस्तिमान् भवेत् २६

वामन बना कर तीन पैर रख कर तीनों 'लोकोंको नाप लिया
 था २० परन्तु इस समय तारकासुरसंप्रापमें यह फिर आगया
 है, सो मेरे साथ युद्ध करते ही यह और देवता नष्ट होजावेंगे २१
 इस प्रकार बहुवसी ज्ञानोंमें उसने नारायणके ऊपर आक्षेप किये
 फिर वह अनुचित बातें कह कर युद्ध करना चाहने लगा २२
 श्रीकृष्णने अमुराजके आक्षेप करने पर भी क्रोध नहीं किया
 और बड़े भारी क्षमात्रलको धारण कर मुस्करा कर यह बात
 कहने लगे २३ अरे दानव ! तुझमें अभिमानका बल तो थोड़ा
 सा ही है और तू क्रोधमें भर कर गालियों बक रहा है अतः
 तू तो अपने दोषोंसे ही मरा हुआ है, क्योंकि तू क्षमासे त्याग
 कर भाषण कर रहा है २४ मैं तुझे अथप मानता हूँ, तेरे इस
 वाग्बलको धिक्कार है, जहाँ पर स्त्रियें गर्जती हैं, वहाँ समझना
 चाहिये कि-कोई पुरुष होगा ही नहीं ? (अर्थात् तू मेरे सामने
 गर्ज रहा है, अतः तेरा नाश होगा) २५ हे दानव ! मुझे तो यह
 दीख रहा है, कि-तू भी पहिले दैत्योंकी गतिको पावेगा ! क्यों
 कि-प्रजापतिकी बॉनी हुई मर्यादाको तोड़ कर कौन कल्याण

अथ त्वां नाशयिष्यामि देवव्यापारकारकम् । स्वेषु स्वेषु च
स्थानेषु स्थापयिष्यामि देवताः ॥ २७ ॥ वैशम्पायन उवाच ।
एवं ब्रुवति तद्वाक्यं मृधे श्रीवत्सधारिणि । जहास दानवः क्रोधात्
हस्तांश्चक्रे च सायुधान् ॥ २८ ॥ स बाहुशतमुद्यम्य सर्वास्त्र-
ग्रहणं रणे । क्रोधाद् द्विगुणरक्ताक्षो विष्णुं वृक्षस्यताडयत् ॥ २९ ॥
दानवाश्चापि समरे मयतारपुरोगमाः । उद्यतायुधनिस्त्रिंशो दृष्ट्वा
विष्णुमथाद्रवन् ॥ ३० ॥ स ताडयमानोऽतिवर्षदैत्यैः सर्वायुधोद्य-
व्रतैः । न चचाल हरियुद्धेऽकम्प्यमान इवाचलः ॥ ३१ ॥ संसक्तश्च
सुपणन कालनेमी महासुरः । सर्वप्राणेन महतीं गदामुद्यम्य
बाहुभिः ॥ ३२ ॥ सुमोच तूलितां घोरां संरब्धो गरुडोपरि ।
कर्मणा तेन दैत्यस्य विष्णुर्विस्यमयमागतः ॥ ३३ ॥ यदा तस्य

पासकता है ? २६ में तुम्हें देवताओंका अपकार करने वालेको
आज मार डालूँगा और देवताओंको उनके पदों पर प्रतिष्ठित
करूँगा २७ वैशंपायनजीने कहा, कि— जब युद्धमें श्रीकृष्ण यह
बात कह रहे थे तब तो वह दानव क्रोधमें भर कर हँसा और
उसने अपने हाथोंमें हथियार पकड़ लिये २८ उसने क्रोधसे लाल
ताल नेत्र कर अपने सब आयुधोंको धारण करनेमें समर्थ सौ
हाथोंको उठा कर उनके वृक्षस्थल पर मारा २९ उधर मय तार
आदि दानव भी विष्णुको देखते ही अपने २ आयुधोंको लेकर
दौड़ पड़े ३० परन्तु अतिवली और आयुध उठा कर आने वाले
उन रान्तसोंके प्रहार करने पर भी विष्णु न कौंपने वाले पर्वत
की समान् विचलित नहीं हुए ३१ इसके उपरान्त क्रोधमें भरे
हुए अमित पराक्रमी महादैत्य कालनेमिने गरुड़के पास जा पूर्ण
बलके साथ अपनी गदाको उठा कर गरुड़के ऊपर प्रहार किया
दानवके इस कर्मसे विष्णुको आश्चर्य हुआ ॥ ३२-३३ ॥ जिस
समय वह गदा गरुड़के मस्तक पर पड़ी उस समय गरुड़का

सुपर्णस्य पतिता मूर्ध्नि सा गदा । तदाऽगमत् पदा भूमिं पत्नी
 व्यथितविग्रहा ॥ ३४ ॥ सुपर्ण व्यथितं दृष्ट्वा क्षतं च चपुरात्मनः ।
 क्रोधात् संरक्तनयनो वैकुण्ठश्चक्रमाददे ॥ ३५ ॥ व्यवर्धतं च
 वेगेन सुपर्णेन समं प्रभुः । भुजाश्चास्य व्यपर्यन्त व्याप्नुवन्तो
 दिशो दश ॥ ३६ ॥ स दिशः प्रदिशश्चैव खं च गां चैव पूरयन् ।
 वृधे स पुनर्लोकान् क्रान्तुकाम इवीजसा ॥ ३७ ॥ तं जयाय
 सुरेन्द्राणां वर्धमानं नभस्तले । ऋषयः सह गन्धर्वैस्तुष्टुवुर्मधु-
 मूदनम् ॥ ३८ ॥ स द्वां किरीटेन लिखन् साभ्रमम्बरमम्बरैः ।
 पद्मचामाक्रम्य वसुधां दिशः प्रच्छाद्य बाहुभिः ॥ ३९ ॥ सूर्यस्य
 रश्मितुन्प्राभं सहस्रारमरत्नियम् । दीप्ताग्निसदृशं घोरं दर्शनीयं
 सुदर्शनम् ॥ ४० ॥ सुवर्णनेमिपर्यन्तं वज्रनाभं भयावहम् । मेदो-

शरीर भिन्ना गया और वह पैरोंके बल पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ ३४ ॥
 गरुड़को व्यथितदेख कर और अपने (दूसरे शरीररूप गरुड़के)
 शरीरको घायल देख कर श्रीकृष्णके नेत्र कोधके मारे लाल र
 रोगए और उन्होंने चक्र उठा लिया ॥ ३५ ॥ तब विष्णु वेग-
 पूर्वक सुपर्णकी समान बढ़ने लगे और दशों दिशाओंमें उनकी
 भुजाएँ भी बढ़ने लगीं ॥ ३६ ॥ जिस समय वह दिशा विदिशा
 आकाश और पृथ्वीमें पूर्ण होते हुए बढ़ने लगे उस समय ऐसा
 प्रतीत होता था, कि— मानो वह ओजमें भर कर लोकोंको दुवार
 नापना चाहते हैं ॥ ३७ ॥ देवताओंको जितानेके लिये विष्णुको
 आकाशमें बढ़ते देख कर ऋषि और गन्धर्व उनकी स्तुति करने
 लगे ॥ ३८ ॥ उस समय श्रीकृष्णके मुकुटसे स्वर्ग कुरदने लगा
 और उनके वस्त्रोंसे आकाश मेघवालासा दीखने लगा उन्होंने
 अपने चरणोंसे पृथ्वीको नाप लिया और अपनी भुजाओंसे
 दिशाओंको भर दिया ॥ ३९ ॥ फिर गदाधरने सूर्यकी किरणोंकी
 समान आभा वाले, सहस्र अरे वाले प्रदीप्त अग्निकी समान

मज्जास्थिरुधिरैर्दिग्धं दानवसंभवंः ॥ ४१ ॥ अद्वितीयं प्रहारेषु
 तुरपर्यन्तमण्डलम् । स्रग्दाममालाविततं कामगं कामरूपिणम् ४२
 स्वयं स्वयंभुवा सृष्टं भयदं सर्ववि द्वेषाम् । महर्षिरोपैराविष्टं नित्य-
 माहवदपितम् ॥ ४३ ॥ क्षेपणाद् यस्य मुह्यन्ति लोकाः सस्थाणु-
 जङ्गमाः । क्रव्यादानि च भूतानि तृप्तिं यान्ति महाहवे ॥ ४४ ॥
 तमप्रतिमकर्माणं समानं सूर्यवर्चसा । चक्रमुद्यम्य समरे क्रोधदीप्तो
 गदाधरः ॥ ४५ ॥ संमुष्णान् दानवं तेजः समरे स्वेन तेजसा ।
 चिच्छेद वाहूँश्चक्रेण श्रीधरः कालनेमिनः ॥ ४६ ॥ तच्च
 वक्रशतं घोरं साग्निचूर्णाट्टिहासिनम् । तस्य दैत्यस्य चक्रेण

घोर दर्शनीय सुदर्शन अक्रको (हाथमें उठा लिया) ॥ ४० ॥
 उस चक्रकी नेमि सुवर्णकी थी नाभि वज्रकी समान दृढ़ थी और
 वह दानवोंके मेद मज्जा हड्डी और रुधिरसे सन रहा था ४१
 वह महार करनेमें अद्वितीय था और उसके मण्डल तक छुरा लगा
 हुआ था और वह (घुमाने पर) मालाओंकी लड़ीकी समान
 (बरेंटीकी समान) दीखता था और इच्छानुसार चलता था
 और इच्छानुसार रूप धारण करलेता था ४२ ब्रह्माजीने अपने
 आप ही उसको बनाया था और वह शत्रुओंको भयभीत कर
 देता था महर्षि उस चक्रके आस पास विराजमान रहते थे और
 वह युद्धमें सदा गर्वाला बन जाता था ४३ उसके फेंकनेके समय
 स्यावर जंगमात्मक सब लोक मोहमें पड़जाते थे और कचे मांसको
 खाने वाले प्राणी वृत्त होते थे ४४ ऐसे अनुपम कर्म करने वाले
 और सूर्यकी समान कान्ति वाले चक्रको कोपमें भरे श्रीकृष्णने
 ऊपरको उठाया ४५ श्रीधरने उस चक्रसे कालनेमिकी भुजाओं
 को काट डाला इसप्रकार उन्होंने अपने तेजसे दानवके तेजको
 हर (दबा) लिया ४६ तदनन्तर श्रीकृष्णने वलपूर्वक चक्र मार
 कर उसके साग्निचूर्णाट्टिहासी सी मुखोंको नष्ट कर डाला (अर्थात्

मममाथ वलाद्धरिः ॥ ४७ ॥ स च्छिन्नवाहुर्विशिरा न
 प्राकम्पत दानवः । क्वन्थावस्थितः संख्ये विशाख इव
 पादपः ॥ ४८ ॥ तं वितत्य महापत्नौ वायोः कृत्वा समं
 जवम् । उरसा पातयामास गरुडः कालनेमिनम् ॥ ४९ ॥
 स तस्य देहो विमुखो विशाखः खात् परिभ्रमन् । निपपात दिवं
 त्यक्त्वा क्षोभयन् धरणीतलम् ॥ ५० ॥ तस्मिन्निपतिते दैत्ये
 देवाः सर्पिणास्तदा । साधु साध्विति वैकुण्ठं समेताः प्रत्य-
 पूजयन् ॥ ५१ ॥ अपरे ये तु दैत्या वै युद्धे दुष्टपराक्रमाः । ते
 सर्वे बाहुभिर्व्यासा न शेकुश्चितुं स्यो ॥ ५२ ॥ काञ्चित् केशेषु
 जग्राह काञ्चित् कण्ठेऽध्मपीडयत् । पाटयत् कस्यचिद्वक्त्रं मध्ये
 काञ्चिदथाग्रहीत् ॥ ५३ ॥ ते गदाचक्रनिर्दग्धा गतसत्त्वा गता-

वनही औपधियोंके कारण गोला फैंकने समय शब्द करने वाली
 सौ तोपोंकी समान उसके गोले फैंकने वाले मुखों को नष्ट कर
 डाला ४७ परन्तु वह दानव शिर और भुजाओंके कटने पर भी नहीं
 काँपा शाखा कटे हुए टूँट वृक्षकी समान कबंधमात्रसे ही युद्धमें
 खड़ा रहा ४८ तब तो गरुड़ जी पर फैला कर वायुकी समान
 वेगसे कालनेमिके पास गए और उसको अपने वक्षःस्थलकी टकर
 मार कर गिरा दिया ४९ उस समय उसका शिर और भुजा-
 रहित शरीर स्वर्गको त्याग आकाशमेंसे पृथ्वीको दहलाता हुआ
 गिर पड़ा ५० उस दानवके गिरने पर देवता और ऋषियोंने
 एकत्रित हो विष्णुकी साधु साधु कह कर पूजाकी ॥ ५१ ॥
 इसके अतिरिक्त और जो दूषित पराक्रम करने वाले दैत्य थे
 उनको श्रीकृष्णने अपने भुजाओंसे दवारवखा था, अतः वह
 समरमें हिल डुल भी न सके ॥ ५२ ॥ श्रीकृष्णने बहुतसे दैत्योंको
 केश पकड़ कर घसीट डाला और बहुतसे दैत्योंके गले घोट दिये
 और बहुतसोंके मुखोंको कुचल दिया और बहुतसे दैत्योंकी पीठ

सवः । गगनाद् भ्रष्टसर्वाङ्गा निपेतुर्धरणीतले ॥ ५४ ॥ तेषु सर्वेषु
 दैत्येषु हतेषु पुरुषोत्तमः । तस्यौ शक्रप्रियं कृत्वा कृतकर्मा गदा-
 धरः ॥ ५५ ॥ तस्मिन् विमर्दे निवृत्ते संग्रामे तारकामये । तं
 देशमाजगामाशु ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ५६ ॥ सर्वैर्ब्रह्मर्षिभिः
 सार्धं गन्धर्वैः साप्सरोगणैः । देवदेवो हरिं देवं पूजयन् वाक्य-
 मब्रवीत् ॥ ५७ ॥ ब्रह्मोवाच । कृतं देव महत्कर्म सुराणां शल्य-
 मुद्घृतम् । वधेनानेन दैत्यानां वयं हि परितोषिताः ॥ ५८ ॥
 योऽयं हतस्त्वया विष्णो कालनेमी महासुरः । त्वमेकोऽस्य मृधे
 हन्ता नान्यः कश्चन विद्यते ॥ ५९ ॥ एष देवान् परिभवन् लोकांश्च
 संचराचरान् । ऋषीणां कदनं कृत्वा मामपि प्रतिगर्जति ॥ ६० ॥
 तदनेन तवोग्रेण परितुष्टोऽस्मि कर्मणा । यदयं कालतुन्याभः

पकड़ कर तोड़दी ॥ ५३ ॥ गदा चकसे राक्षसोंके शरीरकी धूल र
 होगई, उन का सत्त्व जाता रहा और वे मर गए और उनके
 अंग प्रत्यंग अलग-अलग होकर आकाशमेंसे पृथ्वी पर गिरने लगे
 ॥ ५४ ॥ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण उन सब दानवोंके मारेजाने पर शक्र
 का प्रिय कर अपने कामको कर चुके ॥ ५५ ॥ तारकामय संग्रामके
 निवटने पर लोकपितामह ब्रह्मा शीघ्रही तहाँ पहुँचे ॥ ५६ ॥
 तदनन्तर उन देवदेवने तथा ब्रह्मर्षि गंधर्व और अप्सराओंने
 विष्णु देवकी पूजा कर यह बात कही ॥ ५७ ॥ ब्रह्माजीने कहा,
 कि— आपने बड़ा भारी कर्म किया है आपने देवताओंका काँटा
 निकाल डाला है, आपने इस दानवका वध करके हमें परम सन्तुष्ट
 किया है ॥ ५८ ॥ हे विष्णो ! आपने जिस कालनेमि राक्षसको
 मार डाला है ? इसको युद्धमें एक आप ही मार सकते थे दूसरा
 और कोई इसको मारने वाला नहीं दीखता ५९ यह चर अचर
 सब लोकोंका निरस्कार करता था और यह ऋषियोंका संहार
 कर मेरे सामने भी गर्जना किया करता था ॥ ६० ॥ अतः

कालनेगी निपातितः ॥ ६१ ॥ तदाऽगच्छस्व भद्रन्ते गच्छाम
 दिवमुत्तमम् । ब्रह्मपर्यस्त्वां तत्रस्थाः प्रतीक्षन्ते सदोगताः ॥ ६२ ॥
 अहं महर्षयश्चैव तत्र त्वां वदताम्बर । विधिवच्चार्चयिष्यामो
 गीर्भिर्दिव्याभिरच्युत ॥ ६३ ॥ किं चाहं तव दास्यामि वरं वर-
 भृतां वर । सुरेष्वपि सदैत्येषु वराणां वरदो भवान् ॥ ६४ ॥
 निर्यातयैतत् त्रैलोक्यं स्फीतं निहतकण्टकम् । अस्मिन्नेव मृधे
 विष्णो शक्राय सुमहात्मने ॥ ६५ ॥ एवमुक्तो भगवता ब्रह्मणा
 हरिरव्ययः । देवाञ्छक्रमुत्वात् सर्वानुवाच शुभया गिरा ॥ ६६ ॥
 विष्णुरुवाच । श्रयतां त्रिदशाः सर्वे यावन्तोऽत्र समागताः ।
 श्रवणात्तद्विद्वेहैः पुरस्कृत्य पुरन्दरम् ॥ ६७ ॥ अस्मिन्नः समरे
 सर्वे कालनेमिमुखा हताः । दानवा विक्रमोपेताः शक्रादपि मह-

आपने. जो कालकी समान आभा वाले कालनेमिको मार
 डाला आप के इस उग्र कर्मसे मैं परम सन्तुष्ट हुआ हूँ ॥ ६१ ॥
 अतः आप उत्तम स्वर्गमें आइये, हम भी तहाँ जा रहे हैं तहाँ
 पर बैठ कर ब्रह्मर्षि आपकी वाट देख रहे हैं ॥ ६२ ॥ हे अच्युत !
 मैं और ब्रह्मर्षि तहाँ ही दिव्य वाणीसे आपकी पूजा करेंगे ६३
 और वर धारण करने वालोंमें श्रेष्ठ ! मैं आपको क्या वर दे
 सकता हूँ, क्योंकि-आप अच्छे २ देवता और दानवाँको भी
 वरदान देते हैं ॥ ६४ ॥ आपने इस युद्धमें त्रिलोकीको कण्टक
 रहित कर दिया है अतः इस त्रिलोकीके स्फीत राज्यको महात्मा
 शक्रों देदीजिये ॥ ६५ ॥ भगवान् ब्रह्माने अव्यय हरिसे इस
 प्रकार कहा तब वह इन्द्र आदिसे शुभ वाणीमें कहने लगे,
 कि-॥ ६६ ॥ विष्णुने कहा, कि-जितने देवता यहाँ आये हैं,
 वे इन्द्र आदि सब देवता मेरा वाक्य सुननेके लिये अपनी इन्द्रियों
 को सावधान करके मेरे वाक्यको सुनें ६७ इस समरमें हमने इन्द्रसे
 भी अधिक पराक्रमी बड़े २ बली कालनेमि आदि दानवाँको

त्तराः ॥ ६८ ॥ तस्मिन् महति संक्रन्दे द्वावेव तु विनिःसृतौ ।
 वीरोचनश्च दैत्येन्द्रः स्वर्भानुश्च महाग्रहः ॥ ६९ ॥ तदिष्टां भजतां
 शक्रो दिशं वरुण एव च । याम्पां यमः पालयतामुत्तरां च
 धनाधिपः ॥ ७० ॥ ऋक्षैः सह यथायोगं काले चरतु चन्द्रमाः ।
 अर्द्धं ऋतमुखं सूर्यो भजतामयनैः सह ॥ ७१ ॥ आज्यभागाः
 प्रवर्तन्तां सदस्यैरभिपूजिताः । ह्यन्तामग्नयो विप्रैर्वेददृष्टेन
 कर्मणा ॥ ७२ ॥ देवाश्च बलिहोमेन स्वाध्यायेन महर्षयः । श्राद्धेन
 पितरश्चैव वृषिं यान्तु यथासुखम् ॥ ७३ ॥ वायुश्चरतु मार्गस्थ-
 स्त्रिधा दीप्यतु पावकः । त्रयो वर्णाश्च लोकास्त्रीन् वर्धयन्त्वा-
 त्मजैर्गुणैः ॥ ७४ ॥ कतवः संप्रवर्तन्तां दीक्षणीयैर्द्विजातिभिः ।
 दक्षिणाश्चोपवर्तन्तां यथार्हं सर्वसन्निभाम् ॥ ७५ ॥ गाश्च सूर्यो

मार डाला है ॥ ६८ ॥ इस बड़े भारी युद्धमेंसे दानवेन्द्र वीरोचन
 बलि और महाग्रह स्वर्भानु ये दोही वच गए हैं ॥ ६९ ॥ अब
 इन्द्र अभिलषित (पूर्व) दिशाका पालन करे, वरुण पश्चिम
 दिशाका पालन करे और यम दक्षिण दिशाका पालन करे
 और कुवेर उत्तर दिशाका पालन करे । ७० । चन्द्रमा यथा-
 समय नक्षत्रोंके साथ भ्रमण करे और सूर्य ऋतु और (दक्षिण
 और उत्तर) अयनों पर वर्षके साथ विचरण करे । ७१ ।
 सदस्य पूजा करके आज्यभागोंको प्रचलित करे, और ब्राह्मण
 वेदशास्त्रानुसार कर्म करके अग्निमें होम करे ॥ ७२ ॥ देवता
 बलिदानसे वृत्त हों, महर्षि स्वाध्यायसे वृत्त हों और पितर जिस
 प्रकार सुख उनको मिले तिस प्रकार श्राद्धसे वृत्त हों ॥ ७३ ॥ मार्गमें
 स्थित वायु चले और अग्नि (गार्हास्थ्य दक्षिणाग्नि और आह-
 वनीय इन) तीन रूपोंसे प्रज्वलित हो और तीनों लोक तथा
 तीनों वर्ण अपने गुणोंसे बढ़ें ॥ ७४ ॥ दीक्षा लेने योग्य द्विजानि
 यत्रोंको करे और सब सदावर्त वाले अपनी शक्तिके अनुसार

रसान् सोमो वायुः प्राणांश्च प्राणिषु । तर्पयन्तः प्रवर्तन्तां शिवैः
 सौम्यैश्च कर्मभिः ॥७६॥ यथावदनुपूर्व्येण महेन्द्रसलिलोद्भवाः।
 त्रैलोक्यमातरः सर्वाः सागरं यान्तु निम्नगाः७७दैत्येभ्यस्त्यज्यतां
 भीरुच शान्तिं व्रजत देवताः । स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं
 सनातनम् ॥ ७८ ॥ स्वगृहे सर्वलोके वः संग्रामे वा विशेषतः ।
 विश्रम्भो हि न मन्तव्यो नित्यं क्षुद्रा हि दानवाः ॥७९॥ क्षिद्रेषु
 प्रहरन्त्येते न तेषां संस्थितिर्ध्रुवा । सौम्यानामृजुभावानां भवतां
 चार्जवा मतिः ॥ ८० ॥ अहं तु दुष्टभावानां युष्मासु सुदुरात्म
 नाम् । असम्यग्वर्तमानानां मोहं दास्यामि देवताः ॥ ८१ ॥
 यदा च सुदुराधर्षं दानवेभ्यो भयं भवेत् । तदा समुपगम्याशु
 विशास्ये वस्ततोऽभयम् ॥ ८२ ॥ नैशम्पायन उवाच । एव-

दक्षिणा देवै ॥ ७५ ॥ अपने कल्याणमय और सौम्य कर्मोंसे
 सूर्य चक्षु इन्द्रियोंको तृप्त करे, सोम रसोंको पुष्ट करे और वायु
 प्राणियोंके प्राणोंको पुष्ट करे ॥ ७६ ॥ महेन्द्रपर्वतके जलसे
 उत्पन्न होने वाली त्रिलोककी माताएँ नदियों समुद्रको जावें ७७
 हे देवताओं ! अब तुम दानवोंका डर छोड़ दो और शान्ति
 पाओ! हे देवताओं! मैं अब सनातन ब्रह्मलोकको जाता हूँ, तुम्हारा
 कल्याण हो ७८ तुम दानवोंका अपने घरमें और संग्राममें तो वि-
 शेषतः कभी विश्वास न करना, क्योंकि-दानव सदा क्षुद्रताका
 वर्ताव करते हैं ७९ ये तो क्षिद्र (दोष) देखते ही प्रहार कर बैठते हैं
 इनकी (मित्रता) स्थिति पक्की नहीं है और तुम्हारा स्वभाव
 तो सौम्य और सरल है अतः तुम्हारी बुद्धि भी सरल ही है ८०
 हे देवताओं! मैं तो दुष्ट स्वभाव वाले और तुमसे दुरात्मता करने
 वाले और अनुचित वर्ताव करने वालोंको मोहमें डाल देता
 हूँ ॥ ८१ ॥ और अब जब तुम पर दानवोंकी ओरसे बड़ी भारी
 आपत्ति आकर पड़ेगी तब मैं शीघ्रतासे आकर तुमको अभय

मुक्त्वा सुरगणान् विष्णुः सत्यपराक्रमः । जगाम ब्रह्मणा सार्धं
ब्रह्मलोकं महायशाः । दिशोऽप्यतदाश्चर्यमभवत् संग्रामे तारकामये ।
दानवानां च विष्णोश्च यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ८४ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

कालनेमिवधो नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥

जनमेजय उवाच । ब्रह्मणा देवदेवेन सार्धं सलिलयोनिना ।
ब्रह्मलोकगतो ब्रह्मन् गैकुण्ठः किं चकार हं ॥ १ ॥ किमर्थं चापि
देवेन नीतः कमलयोनिना । विष्णुर्दैत्यवधे वृत्ते देवैश्च
कृतसत्कृतः ॥ २ ॥ ब्रह्मलोके च किं स्थानं कं वा योगमुपास्त सः ।
कं वा दधार नियमं स विभुर्भूतभावनः ॥ ३ ॥ कथं तस्यासत्-
स्तत्र विश्वं जगदिदं महत् । श्रियमाप्नोति विपुलां सुरासुरनरा-

दानं दूंगा ॥ ८२ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि. सत्यपराक्रमी
महायशास्वी विष्णु देवताओंसे इसप्रकार कह कर ब्रह्माजीके
साथ २ चले गए ॥ ८३ ॥ हे जनमेजय ! तुमने मुझसे जिस
(-आश्चर्य)को ब्रूया था सो यह विष्णु और दानवोंके तारकाम-
य संग्राममें आश्चर्यजनक घटना घटी थी ॥ ८४ ॥ अड-
तालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥

जनमेजयने कहा, कि-हे ब्रह्मन् ! श्रीकृष्णने सलिलयोनि
देवदेव ब्रह्माजीके साथ ब्रह्मलोकमें जाकर क्या किया था ॥ १ ॥
देवता जिनका सत्कार करते हैं उन विष्णुको दैत्यवधका कार्य
पूर्ण होनेपर देवदेव ब्रह्माजी किस लिये लिवा गए थे ॥ २ ॥
ब्रह्मलोकमें उनका स्थान कौनसा है और उन्होंने तहाँ किस
योगको किया था और उन भूतभावन (प्राणियोंका कल्याण
चाहनेवाले) विभु देवने तहाँ किस नियमका पालन किया था
विष्णुके ब्रह्मलोकमें रहने पर भी जगत् सुर नर और असुरोंकी
पूजनीय विपुल लक्ष्मीको (उन विष्णुसे) कैसे पाता है ॥ ३ ॥

चिताम् ॥ ४ ॥ कथं स्वपिति घर्मान्ते बुध्यते चाम्बुदसवे । कथं
 च ब्रह्मलोकस्थो धुरं वहति लौकिभीम् ॥ ५ ॥ चरितं तस्य
 विप्रेन्द्र दिव्यं भगवतो दिवि । विस्तरेण यथातत्त्वं सर्वमिच्छामि
 वेदितुम् ॥ ६ ॥ वैशम्पायन उवाच । शृणु नारायणस्यादी
 विस्तरेण प्रवृत्तयः । ब्रह्मलोकं यथारूढो ब्रह्मणा सह मोदते ७
 कामं तस्य गतिः सूक्ष्मा देवैरपि दुरासदा । यत्त वक्ष्याम्यहं राजं-
 स्तन्मे निगदतः शृणु ॥ ८ ॥ एष लोकरमयो देवो लोकाश्चैत-
 तन्मयास्त्रयः । एष देवमयश्चैव देवाश्चैतन्मया दिवि ॥ ९ ॥ तस्य
 पारं न पश्यन्ति बहवः पारचिन्तकाः ॥ एष पारं परं चैव लोकानां
 वेद माधवः ॥ १० ॥ अस्य देवांश्कारस्य मार्गितव्यस्य दैवतैः ।

(विष्णु) गरमीके अन्त (आपाढ़) में किस प्रकार शयन करते
 हैं और मेरोंके नाश होने पर अर्थात् कार्तिकशुक्ला एकादशीके
 दिन किस प्रकार जागते हैं और वह ब्रह्मलोकमें रहने पर भी
 संसारके भारको किस प्रकार धारण करते हैं ॥ ५ ॥ हे विप्रेन्द्र !
 वह भगवान् स्वर्गमें रह कर क्या २ चरित्र करते हैं, इस बातको
 मैं विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ ६ वैशम्पायनजीने कहा,
 कि-हे राजन्! नारायण ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीके साथ किस प्रकार
 आनन्द करते हैं इसको और उनके कर्मोंको विस्तारसे सुनो ७
 वह अपनी इच्छानुसार चलते हैं और उनकी सूक्ष्म गतिको देवता
 भी कठिनतासे समझ पाते हैं, मैं विष्णुकी गतिको कहता हूँ उस
 को तुम सुनो ८ यह देव तीनों लोकोंमें व्याप्त हैं और तीनों लोक
 इन देवमें व्याप्त हैं यह देवमय हैं और स्वर्गमें देवता विष्णुमय
 हैं (अर्थात् जैसे पटतन्तुओंसे व्याप्त (बना हुआ) होता है, इसी
 प्रकार लोक हरिके शरीरको बनाते हैं और पट जैसे केवल पृथ्वीमय
 है, इसी प्रकार लोक विष्णुमय हैं) ९ बहुतसे पारचिन्तक मनुष्य
 उनका पार नहीं पाते हैं यह माधव लोकोंसे पर हैं और लोकों

शृणु वी यत्तदा वृत्तं ब्रह्मलोके पुरातनम् ॥ ११ ॥ स गत्वा
 ब्रह्मणो लोकं दृष्ट्वा पैतामहं पदम् । वन्दे तानृषीन् सर्वान् विष्णु-
 रापेण कर्मणा ॥ १२ ॥ सोऽग्निं प्राक्सवने दृष्ट्वा हूयमानं महर्षिभिः ।
 अन्दत महातेजाः कृत्वा पूर्वार्द्धिकीं क्रियाम् ॥ १३ ॥ स ददर्श
 मखेष्वाज्यैरीज्यमानं महर्षिभिः । भागं यज्ञिगमरनानं स्वदेहमपरं
 स्थितम् ॥ १४ ॥ अगिवाद्याभिवाद्यानामृषीणां ब्रह्मवर्चसाम् ।
 परिचक्रामं सोऽनित्यो ब्रह्मलोकं सनातनम् ॥ १५ ॥ स ददर्शो-
 च्छ्रितान् यूपांश्चपात्नाग्रविभूषितान् । मखेषु च ब्रह्मर्षिभिः शतशः
 कृतलक्षणान् ॥ १६ ॥ आज्यधूमं समाधाय शृण्वन् वेदानं द्विजे-
 रितान् । यज्ञैरिज्यन्मात्मानं पश्यंस्तत्र चचार ह ॥ १७ ॥ ऊचु-
 स्तमृषयो देवाः सदस्याः सदसि स्थिताः । अर्घोद्यतभुजाः सर्वे

की आत्मा को जानते हैं १० देवता जब इनके पारको खोजने लगे
 तब उनकी इन्द्रियें अंकार (मोह) में पड़ गई थीं, उस समय
 के ब्रह्मलोकके प्राचीन इतिहासको तुम सुनो ११ विष्णुने ब्रह्म-
 लोके पितामहके स्थान पर पहुँच कर सब ऋषियोंको ऋषि-
 प्रणीत प्रणालीसे प्रणाम किया १२ उन महातेजस्वीने महर्षियोंको
 मान-काल अग्निमें होम करते देख कर अपने आप भी पूर्वार्द्धकी
 क्रियाकी फिर ऋषियोंको प्रणाम किया १३ उन्होंने देवा, कि-
 भेरा दूसरा देह यज्ञोंमें ऋषियोंके आग पूजा करके दिये हुए
 आज्यभागका भक्षण कर रहा है १४ फिर वन्दनीय ब्रह्मतेजस्वी
 ऋषियोंको प्रणाम करके वह मधु सनातन ब्रह्मलोकमें विचरण
 करने लगे १५ तहाँ उन्होंने ऋषियोंके द्वारा मैरुड़ां मकारके
 चिन्होंने चिह्नित चमेलियोंसे विभूषित ऊचे २ यज्ञस्तम्भोंको
 देखा १६ और वह घृाकी गन्धको सूरने हुए ब्राह्मणोंके उच्चा-
 रण किये हुए वेदों को सुनते हुए तथा (दूसरे शरीरमें) यज्ञोंसे
 अपनी पूजा होती हुई देवते हुए घूमने लगे ॥ १७ ॥ उस

पवित्रान्तरपालयः ॥ १८ ॥ देवेषु वर्तते यद्वै तद्धि सर्व जनार्द-
नान् । यत् प्रवृत्तं च देवेष्वस्तद्विद्धि मधुमूदनात् ॥ १९ ॥ अग्नीषो-
ममगं लोकं यं विदुर्विदुषो जनाः । तं सोममग्निं लोकं च वेद
विष्णुं सनातनम् ॥ २० ॥ क्षीराग्रथा दधि भवेद्धनः सर्पिर्भवे-
द्यथा । मध्यमानेषु भूतेषु तथा लोको जनार्दनात् २१ यदन्द्रियैश्च
भूतैश्च परमात्माऽभिधीयते । तथा देवैश्च वेदैश्च लोकैश्च
विहितो हरिः ॥ २२ ॥ यथा भूतेन्द्रियावाप्तिविहिता भुवि देहि-

समय सभा में बैठे हुए देवता और ऋषि सदस्य हाथमें
पवित्री पहिर और अग्नि ले कर उनसे कहने लगे ॥ १८ ॥

देवताओंमें जो (सामर्थ्य) है वह सब श्रीकृष्णकी हैं और देवता
जिन कर्मोंको करते हैं, उनके मधुमूदनकी कृपासे ही होने वाला
समझना चाहिये ॥ १९ ॥ विद्वान् पुरुष संसारको अग्नीषो-
मात्मक जानते हैं (और आप) विद्वानोंसे यह जान चुके है,
कि-) सनातन विष्णु ही सोम अग्नि और लोकमय है ॥ २० ॥

(इन्द्रिय आदि देहके मथने पर अर्थात् ध्यान-बलसे इनका
प्रविलापन करने पर अन्तर्दृष्टिसे यह प्रतीत होता है, कि-
जनार्दनसे ही यह लोक उत्पन्न हुआ है, क्योंकि-लोक दीखने
लगता है, यहाँ पर क्षीरमेंका अज्याकृत उदाहरण कहते हैं) जैसे
क्षीरमेंसे दही होजाता है और दहीमेंसे जैसे घृत निकल आता है
इसी प्रकार भूत (इन्द्रियों) के मथन करने पर (यह प्रतीत
होता है, कि-) यह लोक जनार्दनसे उत्पन्न हुआ है ॥ २१ ॥

जैसे (अगोचर) परमात्मा भी (चेतनासे व्याप्त) इन्द्रिय
और देहसे जाननेमें आता है, उसी प्रकार वेद और देवताओं
से विष्णुका पता लगता है अर्थात् देवता और वेदके रूपमें हरि
ही कृपा करते हैं ॥ २२ ॥ जैसे पृथ्वीमें प्राणियोंका इन्द्रिय
और भूतोंका सम्बन्ध भूतोंके कारण दिखाने देता है, ऐसे ही

शृणु नै यत्तदा वृत्तं ब्रह्मलोके पुरातनम् ॥ ११ ॥ स गत्वा
 ब्रह्मणो लोकं दृष्ट्वा पैतामहं पदम् । ववन्दे तानृषीन् सर्वान् विष्णु-
 रार्पेण कर्मणा ॥ १२ ॥ सोऽग्निं प्राक्सवने दृष्ट्वा हूयमानं महर्षिभिः ।
 अवन्दत महानेजाः कृत्वा पौर्वाह्निकीं क्रियाम् ॥ १३ ॥ स ददर्श
 मखेष्वाज्यैरीज्यमानं महर्षिभिः । भागं यज्ञिमरनानं स्वदेहमपरं
 स्थितम् ॥ १४ ॥ अभिवाद्याभिवाद्यानामृषीणां ब्रह्मवर्चसाम् ।
 परिचक्रामं सोऽर्चित्वा ब्रह्मलोकं सनातनम् ॥ १५ ॥ स ददर्शो-
 च्छ्रितान् यूषारक्षपालाग्रविभूषितान् । मखेषु च ब्रह्मर्षिभिः शतशः
 कृतलक्षणान् ॥ १६ ॥ आज्यधूमं समाधाय शृण्वन् वेदान् द्विजे-
 रितान् । यज्ञैरिज्यन्मात्मानं पश्यंस्तत्र चचार ह् ॥ १७ ॥ ऊचु-
 स्तमृषयो देवाः सदस्याः सदसि स्थिताः । अर्घोद्यतभुजाः सर्वे

की आत्मा को जानते हैं १० देवता जब इनके पारको खोजने लगे
 तब उनकी इन्द्रियें अंधकार (मोह) में पड़ गई थीं, उस समय
 के ब्रह्मलोकके प्राचीन इतिहासको तुम सुनो ११ विष्णुने ब्रह्म-
 लोकमें पितामहके स्थान पर पहुँच कर सब ऋषियोंको ऋषि-
 प्रणीत प्रणालीसे प्रणाम किया १२ उन महातेजस्वीने महर्षियोंको
 प्रातःकाल अग्निमें होम करते देख कर अपने आप भी पूर्वान्हकी
 क्रियाकी फिर ऋषियोंको प्रणाम किया १३ उन्होंने देखा, कि-
 मेरा दूसरा देह यज्ञोंमें ऋषियोंके द्वाग पूजा करके दिये हुए
 आज्यभागका भक्षण कर रहा है १४ फिर वन्दनीय ब्रह्मतेजस्वी
 ऋषियोंको प्रणाम करके वह मभु सनातन ब्रह्मलोकमें विचरण
 करने लगे १५ तहाँ उन्होंने ऋषियोंके द्वारा सैकड़ों प्रकारके
 चिन्होंने चिन्हित चक्रेलियोंसे विभूषित ऊचे २ यज्ञस्तम्भोंको
 देखा १६ और वह धूमकी गन्धको सूवने हुए ब्राह्मणोंके उच्चा-
 रण किये हुए वेदों को सुनते हुए तथा (दूसरे शरीरमें) यज्ञोंसे
 अपनी पूजा होती हुई देखते हुए घूमने लगे ॥ १७ ॥ उस

पवित्रांतरपाणयः ॥ १८ ॥ देवेषु वर्तते यद्वै तद्वि सर्ष जनार्द-
 नात् । यत् प्रवृत्तं च देवेभ्यस्तद्विद्वि मधुमूदनात् ॥ १९ ॥ अग्नीषो-
 मममं लोकं यं विदुर्विदुषो जनाः । तं सोममग्निं लोकं च वेद
 विष्णुं सनातनम् ॥ २० ॥ क्षीराग्रथा दधि भवेद्दध्नः सर्षिर्भवे-
 च्चथा । मधुमगानेषु भूतेषु तथा लोको जनार्दनात् २१ यधेन्द्रियैश्च
 भूतैश्च परमात्माऽभिधीयते । तथा देवैश्च वेदैश्च लोकैश्च
 विहितो हरिः ॥ २२ ॥ यथा भूतेन्द्रियावासिर्विहिता भुवि देहि-

समय सभा में बैठे हुए देवता और ऋषि सदस्य हाथमें
 पवित्री पहिर और अर्घ्य ले कर उनसे कहने लगे ॥ १८ ॥
 देवताओंमें जो (सामर्थ्य) है वह सब श्रीकृष्णकी है और देवता
 जिन कर्मोंको करते हैं, उनको मधुमूदनकी कृपासे ही होने वाला
 समझना चाहिये ॥ १९ ॥ विद्वान् पुरुष संसारको अग्नीषो-
 मात्मक जानते हैं (और आय) विद्वानोंसे यह ज्ञान चुके है;
 कि- सनातन विष्णु ही सोम अग्नि और लोकमय है ॥ २० ॥
 (इन्द्रिय आदि देहके मथने पर अर्थात् ध्यान-बलासे इनका
 प्रचिन्तापन करने पर अन्तहृष्टिसे यह प्रतीत होता है, कि-
 जनार्दनसे ही यह लोक उत्पन्न हुआ है, क्योंकि-लोक देखने
 लगता है, यहाँ पर क्षीरमेंका अव्याकृत उदाहरण कहते हैं) जैसे
 क्षीरमेंसे दही हो जाता है और दहीमेंसे जैसे घृत निकल आता है
 इसी प्रकार भूत (इन्द्रियों) के मथन करने पर (यह प्रतीत
 होता है, कि-) यह लोक जनार्दनसे उत्पन्न हुआ है ॥ २१ ॥
 जैसे (अगोचर) परमात्मा भी (चेतनासे व्याप्त) इन्द्रिय
 और देहसे जाननेमें आता है, उसी प्रकार वेद और देवताओं
 से विष्णुका पता लगता है अर्थात् देवता और वेदके रूपमें हरि
 ही कृपा करते हैं ॥ २२ ॥ जैसे पृथ्वीमें प्राणियोंका इन्द्रिय
 और भूतोंका सम्बन्ध भूतोंके कारण दिखाई देता है, ऐसे ही

नाम् । तथा प्राणेश्वरावाप्तिर्देवानां दिवि वैष्णवी ॥२३॥ सत्रिणां
सत्रफलदः पवित्रं परमात्मवान् । लोकतन्त्रधरो ह्येष मन्त्रैर्मत्र
इवोच्यते ॥ २४ ॥ ऋषय ऊचुः । स्वागतं ते सुरश्रेष्ठ पद्मनाभ
महाद्युते । इदं यज्ञियमातिथ्यं मन्त्रतः प्रतिगृह्यताम् ॥ २५ ॥
त्वमस्य यज्ञपूतस्य पात्रं पाद्यस्य पावनः । अतिथिस्त्वं हि मंत्रोक्तः
संहृष्टः सततं मतः ॥२६॥ त्वयि योद्धुं गते विष्णो न प्रावर्तन्त
नः क्रियाः । अत्रैष्णवस्य यज्ञस्य न हि कर्म विधीयते ॥ २७ ॥
सदक्षिणस्य यज्ञस्य त्वत्प्रसूतिः फलं भवेत् । अत्रात्मानमिहा-
स्माभिरिज्यमानं निरीक्ष्यसे ॥ २८ ॥ एवमस्त्विति तान् सर्वान्

देवलोकमें देवताओंका ऐश्वर्य और प्राण सम्बन्ध विष्णुसे ही
होता है ॥ २३ ॥ मन्त्र यज्ञ करनेवालोंको यज्ञका फल देनेवाले
इस परमात्मवान् पवित्र लोकतन्त्रधरको मन्त्र कहते हैं (अर्थात्
जैसे बाणीकी मधुरताको वाणी ही जानती है, ऐसे ही मन्त्र
उनका प्रतिपादन करते हैं) ॥ २४ ॥ ऋषियोंने कहा, कि—
हे पद्मनाभ ! हे महाद्युते ! हे सुरश्रेष्ठ ! इस यज्ञके अतिथि-
सत्कारको आप मन्त्रपूर्वक ग्रहण करिये ॥ २५ ॥ आप इस
यज्ञसे पवित्र हुए पाद्यके पात्र हैं, मन्त्रोंमें आपका ही अतिथिरूप
से वर्णन किया है और देखने पर उन्होंने आपको जान लिया
है ॥ २६ ॥ हे विष्णो ! जब आप युद्ध करनेको चले गए थे
तो हमारी यज्ञ आदि क्रियाएँ ठीक नहीं होती थीं क्योंकि-यज्ञकर्म
विष्णुके बिना नहीं चल सकता (अर्थात् तुम अन्तरात्माके न
होनेसे यज्ञ करने पर भी सफल नहीं होते थे) ॥२७॥ दक्षिणा
वाले यज्ञका फल भी आपसे ही मिलता है, आज आप हमारे
द्वारा अपनी पूजा होती हुई देख रहे हैं ॥ २८ ॥ तब भगवान्
ने एवमस्तु कहकर उन सबकी मशंसा की, तब ब्रह्मलोक और
विनामहने समाधिस्थितकी समान आनन्द पाया (तात्पर्य यह

भगवान् प्रत्यपूनयत् । मुमुदे ब्रह्मलोकस्थो ब्रह्मलोकपितामहः २६
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि लोकरवर्णनं
नाम एकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

गौशम्पायन उवाच । ऋषिभिः पूजितस्तैस्तु विवेश हरि-
रीश्वरः । पौराण्यं ब्रह्मसदनं दिव्यं नारायणाश्रमम् ॥ १ ॥ स
तद्विवेश हृष्टात्मा तानामन्व्य सदोगतान् । प्रणम्य चादिदेवाय
ब्रह्मणे पद्मयोनये ॥ २ ॥ स्वेन नाम्ना परिज्ञातं स तं नारायणा-
श्रमम् । पविशन्नेव भगवानायुधानि व्यसर्जयत् ॥ ३ ॥ स तत्रा-
वुपतिप्रख्यं ददर्शालिगमात्मनः । स्वधिष्ठितं देवगणैः शाश्वतैश्च
महर्षिभिः ॥ ४ ॥ सम्वर्तकाम्बुदोषेतं नक्षत्रस्थानसंकुलम् तिभि-

है, कि-पुरुष ब्रह्मलोकमें जाने पर भी विष्णुकी उपासना करते
हैं, तहाँ पहुँचने पर अपनेको कृतकृत्य मान कर अभिमानवश
उपासना करना बन्द नहीं कर देते हैं) ॥ २६ ॥ उडञ्चासवाँ
अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥

गौशम्पायनजीने कहा कि-ईश्वर हरि ऋषियोंके पूजा करने
पर अपने दिव्य स्थान नारायणाश्रममें चले गए, पुराणोंमें
वर्णित नारायणका स्थान ब्रह्मलोकमें है ॥ १ ॥ विष्णु प्रसन्न
हो सदस्योंसे बातचीत कर और पद्मयोजि आदिदेव ब्रह्माजीके
अभिवादन कर अपने सदनमें चले गए ॥ २ ॥ अपने नामसे
प्रसिद्ध नारायणाश्रममें घुसते ही भगवान्ने अपने सब आयुधों
को धर दिया ॥ ३ ॥ तहाँ उन्होंने समुद्रकी समान (विस्तृत)
अपने भवनको देखा तो उसमें देवता और शाश्वत महर्षि बैठे
हुए थे ॥ ४ ॥ तहाँ पर मलयकालके मेघ उगस्थित थे और
उस स्थानमें नक्षत्र धर रहे थे और तहाँ अन्धकार भर रहा
था (अर्थात् तहाँ पर सब वस्तुएँ सुप्तिकी समान सूक्ष्मरूपमें
विद्यमान होने पर भी अविद्यासे आवृत रहती हैं अत एव उस

रौघपरिन्तिसप्तपध्वयं सुरासुरैः ॥५॥ न तत्र विषयो वायोर्नेन्दोर्न
च विवस्वतः । वपुषः पद्मनाभस्य स देशस्तेजसा वृतः ॥ ६ ॥
स तत्र प्रविशन्नेव जटःभारं । समुद्रहन् । सहस्रशीर्षा भूत्वा तु
शयनायोपचक्रमे ॥७॥ लोकाणामन्तकालजा काली नयनशालिनी ।
उपतस्ये महात्मानं निद्रा तं कालरूपिणी ॥८॥ स शिःये शयने

स्थानको) देवता और असुर भी नहीं जान सकते (अर्थात्
जैसे वटगीर्णके उदरमें सारा वट वर्तमान है परन्तु दीग्वता नहीं
है इसी प्रकार हरिमन्दिरमें संपूर्ण ब्रह्माण्ड विद्यमान होने पर
भी नहीं दीग्वता है) ५ (फिर उसके होनेमें क्या पूमाण
है, इस शंकाका उत्तर यह है, कि-वह अनात्मा ज्योतियोंसे
पूकाशित नहीं होता है आत्मज्योति ही उसको दिखा सकती
है यही कहते हैं कि-) वायु चन्द्रमा और सूर्यका तेज भी तहाँ
पूकाश नहीं कर सकता, वह देश पद्मनाभके शरीरके तेजसे व्याप्त
रहता है (अर्थात् जैसे निद्रावस्थामें सब मूद्मरूपमें रहने पर
भी नहीं भासता है, कदाचित् स्वप्नमें आत्मज्योतिसे भास
जाता है, इसी स्वप्नावस्थाको लक्ष्य करके कहा है, कि-यह
पद्मनाभके शरीर (आत्मा) के तेजसा भासता है) ६
वह पहिले सहस्रशीर्षा बने थे (फिर विरवलक्षण सहस्रशीर्षा-
त्व रूप संसारलक्षणको त्याग कर वह) जटा(स्थानीय लोका-
वासनाके) भारको धारण कर सोने लगे (अत एव सुषुप्तिमें
भी नार्गन्निगसे वासना रहती है, यह प्रतीत होता है) ७ उस
समय नयनशालिनी काली (कृष्णवर्णकी मूद्मको भी ढकने
वाली) लोकोंके अन्तको जानने वाली कालरूपिणी निद्रा उन
महात्माकी सेवा करने लगी ८ व्रतधारियोंमें श्रेष्ठ हरि एकार्ण-
वाक्त व्रतमे समुद्रके और मेरुके जलसे शीतल दिव्यशयनमें शान
करने लगे (तात्पर्य-श्रीकृष्ण एकार्णवाक्त (निर्विह्वलसमाधि

दिव्ये समुद्रांभोदशीतले । हरिरेकार्णवोक्तेन व्रतेन व्रतिनां वरः
 तं शयानं महात्मानं भवाय जगतः प्रभुम् । उपासन्नकिरे विष्णुं
 देवाः सर्पिगणास्तथा ॥१०॥ तस्य सुप्तस्य शुशुभे नाभिमध्यात्
 समुत्थितम् । आद्यं तस्यासनं पद्मं ब्रह्मणः सूर्यवर्चसम् । सहस्र-
 पत्रं वर्णाढ्यं सुकुमार विभूषितम् ॥ ११ ॥ ब्रह्मसूत्रोद्यतकरः

के लिये कहे हुए) संपपको धारण कर क्षीरसमुद्र (निर्मिकल्प)
 और अंभोद (स वेकल्प) सपाधि इन दोनोंके कारण निस्ताप
 समाधिमें शयन करने लगे ६ देवता और ऋषि जगत्का हित
 करनेके लिये शयन करने वाले प्रभु विष्णुकी उपासना करने लगे
 (तात्पर्य-“अद्विसापतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः-अद्विसाका
 पालन करने वालेसे सध प्राणी वैर करना छोड़ देते हैं” इसप्रकार
 योगके एक रथंगका भिन्नफल परलोकमें मिलता है पूर्ण योगका
 फल तो जगत्का हित चाहना ही है। अध्यात्म(देवता इन्द्रिय) और
 ऋषि (प्राण-) आत्माके समीप रहकर उसकी उपासना करने
 लगे, परन्तु उन्होंने अपना कार्य करना बन्द नहीं किया) १०
 नारायणके सोते २ ही उनकी नाभिमेंसे एक कमल उत्पन्न
 होगया वह ब्रह्माका सूर्यकी समान तेजस्वी आद्य आसन है
 (तात्पर्य-माताके नाभिदेशसे (उदरमें) एक नाल निकला
 हुआ है उस पर पुष्प आता है और पुष्प रेत (वीर्य) के संयोग
 से गर्भ होजाता है, वह गर्भ माताके खाये हुए अन्नरससे नाल
 के द्वारा पुष्ट होता रहता है, तदनन्तर पक्वफलन्यायकी समान
 वृन्तसे च्युत होजाता है, इसीप्रकार विष्णुसे उत्पन्न हुए ब्रह्मा
 वैष्णवी मायासे पुष्ट हो विष्णुसे च्युत होने पर अपने आपको
 दूसरा मानता है यही बात इस श्लोकमें कही है) ११ वह मुनि
 शयन करते २ ही ब्रह्मसूत्ररूपी दाधको उठाकर सब लोकोंके
 कालका लौट फेर करते रहते हैं (तात्पर्य-प्रवर्तमान कालके

स्वप्नेव महाप्नुनिः । आवर्तयति लोकानां सर्वेषां कालपर्य-
यम् ॥ १२ ॥ विष्टत्तात्तस्य वदनाग्निःस्वासपवनेरिताः । मजानां
पंक्तयो ह्युच्चैर्निष्पतंत्युत्पतन्ति च ॥ १३ ॥ ते सृष्टाः प्राणिनो
मेष्या विभक्ता ब्रह्मणा स्वयम् । चतुर्था स्वां गतिं जग्मुः कृता-
तोक्तेन कर्मणा ॥ १४ ॥ न त वेद स्वयां ब्रह्मा जापि ब्रह्मर्षयो-
व्ययाः । विष्णोर्निद्रामयां योगं प्रविष्टं तमसा वृतम् ॥ १५ ॥
ते तु ब्रह्मर्षयः सर्वे पितामहपुरोगमाः । न विदुस्तं क्वचित् सुप्तं

ब्रह्माके जो पूर्वजन्मका वासनारूप तन्तु (सूत्र) है वही उनका उठे
हुए हाथकी समान है वह सोते हुए ही अर्थात् स्थास्थयसे हीन
न होते हुए लोकोंके कालकृत ऊपरी और अधोभावकी
अवर्तना करते रहते है, अर्थात् अयस्कान्तमणिकी समान उनके
कुद्ध न करने पर भी लोकस्वभावसे ही सृष्टि आदि उत्पन्न
हे जाते है १२ उन (ब्रह्मा) के खुले हुए मुखमेंसे निकली
हुई स्वासोंकी पवनसे पूजाकी पंक्ति ऊपरकी उठती हैं और
नीचेकी गिर जाती हैं (अर्थात् ब्रह्माजीसे जैसे नारायण उत्पन्न
हुए हैं, इसी प्रकार ब्रह्माजीसे और प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई
है) १३ ब्रह्माजीने उन पवित्र प्राणियोंको रच कर उनको
(ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र) इन चार वर्णोंमें कर्मभेदसे
बाँट दिया है वे कृतान्तोक्तविधि-सिद्धान्तको बताने वाले वेदमें
कहे कर्मोंको करके अपनी गति (परममाप्य ईश्वर) को पाते
हैं (अर्थात् अपने २ वेदोक्त कर्मको करने वाले सब स्वधर्मनिष्ठ
मुक्त होजाते हैं) ॥ १४ ॥ अन्धकारसे व्याप्त निद्रामय योगको
धारण कर शयन करनेवाले विष्णुको अव्यय ब्रह्मर्षि और
स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते जब ब्रह्माजी आदि विष्णुके
अविद्यःशबल रूपको भी कठिनतासे जान सकते हैं तो उनके
शुद्धस्वरूपको तो किस प्रकार जान सकते हैं ॥ १५ ॥ पितामह

व्यभिदासीनमासने ॥ १५ ॥ जागति कोऽत्र कः शोते करच

आदि (जब आप किसी समय वा कालमें सोजाते हैं अर्थात् व्यवहारको छोड़ देते हैं वा आसन पर बैठे होते हैं अर्थात् सृष्टि-व्यवहारको करते होते हैं तब (आपकी सृष्टिवशीलताके कारण) इन बातोंको नहीं समझते हैं ॥ १६ ॥ (कोई २ पुरुष विचारते हैं, कि-) इस देहमें कौन जागता है कौन शयन करता है कौन प्रापथ्य रखता है और कौन चेष्टा करता है, कौन भोग करता है, कौन कांतिवान है और कृष्णका भी कृष्ण (आत्मा) कौन है १७ (त्रात्पर्य-कोई २ पुरुष विचारते हैं, कि-इस देहमें कौन जागता है अर्थात् इन्द्रियोंसे विषयोंका अनुभव कौन करता है? यदि वह भूतयोगसे उत्पन्न होता है तो उसभी शक्ति मन्द होगी और इनकी समान होंगी अतः चेतन कोई और नहीं होसकता, लोकायतिकोंके मतकी 'जागति कोऽत्र-यहाँ कौन जागता है' इस शंकाको उठा कर उत्तर देते हैं, कि " कः शोते तो सोता कौन है' अर्थात् सुषुप्तिमें भी भूतोंका योग तो रहता है अतः उस अवस्था में भी विषयोंका अनुभव होना चाहिये परन्तु अनुभव नहीं होता अतः आत्मा भूतोंसे अन्य है । यदि कहे, कि-आनुपात्रकरणके कारण विषयोंका अनुभव नहीं होता है तो मनको ही आत्मान मान लेना चाहिये (अर्थात् अनुकूल करणके बिना अनुभव नहीं होता है तो मनको ही करण मानकर उसको ही आत्मान मानलेना चाहिये ?) ऐसी शंका उठाते हुए कहते हैं, कि-"कथं शक्तश्च नैगते-अर्थात् समर्थ होने पर भी ऐसा कौन है जो चेष्टा नहीं करता है वही (मन आत्मा) है ? (उत्तर)करणके बिना भी कहीं अनुग्रह (अनुभव) होता है ? स्वप्नमें मन विषयोंको ग्रहण करता है अतः वह करण है यह बात बाहरी उष्णताकी समान दुस्त्या-ज्य है अतः वह करण है और आत्मा मनसे भी भिन्न दूसरा

शक्तश्च नेंगते । को भोगवान् को द्युतिमान् कृष्णात् कृष्णतरश्च

पदार्थ है, क्योंकि-करण होनेके कारण मन भी दूसरे करणों की समान अपनी प्रवृत्तिमें निवृत्तिमें स्वतंत्र नहीं होसकता, अत एव वह आत्मा नहीं होसकता ? वादी फिर शंका करता है, कि—उसका नियमन करने वाली (उसको प्रवृत्त करने वाली) बुद्धिको ही आत्मा मान लेना चाहिये ? इस शंकाका उत्तर देते हुए मूलमें कहा, है, कि “को भोगवान्-भोगनेवाला कौन है” अर्थात् बुद्धि तो सदा बदलती रहती है, एक कालकी बुद्धि दूसरे समयमें नहीं रहती है, यथा-मैंने बालकपनमें जिस फलका वर्णन सुना था, उसको ही मैंने यौवनमें देखा था उसी का इस समय आस्वाद ले रहा हूँ । इस प्रकार बुद्धिमें भेद होने पर भी आत्मा एक ही प्रतीत होता है अतः भोक्ता बुद्धि नहीं है और है, तथा वह बुद्धिसे भिन्न है । वादी फिर कहता है, कि—‘अहं सुखी मैं सुखी हूँ’ इस अनुभवके कारण अहंकार को ही आत्मा मान लेना चाहिये ? इसका खण्डन करता हुआ सिद्धांती कहता है, कि—मैं गौरवर्ण हूँ, ऐसा अनुभव करने पर देहको आत्मा माननेकी आपत्ति आजायगी और अहंकार सुषुप्ति आदिमें नहीं दीखता, अतः वह आत्मा नहीं होसकता । वादी कहने लगा, कि—जब कुछ नहीं दीखता तो शून्यको ही आत्मा माननेमें क्या दोष है मूलमें कहा है कि—‘को द्युतिमान् द्युतिमान् कौन है’ अर्थात् सुषुप्तिमें आत्माके न होने पर ‘सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिपं—मैं सुखपूर्वक सोया, मुझे कुछ भी खबर नहीं रही’ इस सुषुप्तिके समयके सुखका और अज्ञानका अनुभवके बिना परामर्श नहीं होसकता और अनुभव अपने आत्माके अतिरिक्त और किसीसे नहीं होसकता अतः प्रतीत होता है, कि—शून्यका सान्नी आत्मा सद्रूप है । वादी कहता है,

कः ॥ १७ ॥ विमृशन्ति स्म तं देवा दिव्याभिरुपपत्तिभिः । न
 चैनं शेकुरन्वेष्टुं कर्मतो जन्मतोपि वा ॥ १८ ॥ गाथाभिस्त-
 त्प्रदिष्टाभिर्ये तस्य चरितं विदुः । पुराणास्तं पुराणेषु श्रुतयः
 संपचक्षते ॥ १९ ॥ श्रूयते चास्य चरितं देवेष्वपि पुरातनम् ।
 महापुराणात् प्रभृति परं तस्य न विद्यते ॥ २० ॥ यच्चास्य देव-

तो फिर आत्माको साक्षी मान लेने पर एक पुरुषका अनुभव
 दूसरा पुरुष नहीं करसकता अतः प्रति शरीर २ में भिन्नरूप
 से वर्तमान क्लेश कर्म विपाक और आशयसे अपरामुष्ट पुरुष-
 विशेषसे और ईश्वरसे विलक्षण बन्धनमोक्षका भागी आत्मा
 होगा ऐसी शंका करके कहते हैं कि-‘कृष्णात् कृष्णतरश्च कः
 कृष्णसे कृष्णतर कौन है’ अर्थात् परमतमें शब्दादि हीन होनेसे
 प्रधान अतिसूक्ष्म होनेसे आत्मा है परन्तु प्रधान तीन गुणोंसे
 मिला हुआ है अतः उस संहतकी अपेक्षा असंहत पुरुष ही
 आत्मा है । पातञ्जल कहते हैं, कि-ईश्वर उससे भी सूक्ष्म नहीं
 है श्रुति भी कहती है, कि-‘नान्योतोऽस्ति द्रष्टा-उसके अतिरिक्त और
 कोई द्रष्टा नहीं है’ इस प्रकार दूसरे द्रष्टाका निषेध होनेसे साक्षी
 के अतिरिक्त और कोई आत्मा नहीं है । और बन्धन और मोक्ष
 की व्यवस्था तो तर्कमतके श्रोत्रके एक होने पर भी उपाधिके मेद
 की समान मानीजायगी । और क्लेश आदिका संबन्ध वास्तविक
 नहीं है । इस प्रकार आत्मा अनीश्वर नहीं है सब अनवद्य कृष्णसे ही
 होता है १७ देवता उनको श्रुतिकी युक्तियोंसे जानते हैं, परन्तु वे
 इनके कर्म वा जन्मका पता नहीं पासकते १८ ईश्वररचित गाथाओं
 से जो प्राचीन श्रुति उनके चरित्रको पुराणोंमें जानते हैं तो कहते हैं
 (श्रुतिमें लिखा है कि अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदग्वेदो
 यजुर्वेद इति) ॥ १९ ॥ देवताओंमें भी इनका प्राचीन चरित्र
 सुननेमें आता है कि-इन बड़े प्राचीन पुरुषसे अधिक और कोई

देवस्य चरितं स्वप्रभावजम् । तेनेमाः श्रुतयो व्याप्ता वैदिक्यो
 लौकिकाश्च याः ॥ २१ ॥ भवकाले भवत्येष लोकानां लोका-
 भावनः । दानवानामभावाय जागर्ति मधुसूदनः ॥ २२ ॥ यत्रैनं
 वीक्षितु देवा न शक्नुः सुप्तमव्ययम् । ततः स्वपिति घर्मान्ते जागर्ति
 जलदन्तये ॥ २३ ॥ स हि वेदाश्च यज्ञाश्च यज्ञांगानि च सर्वशः ।
 या तु यज्ञगतिः प्रोक्ता स एव पुरुषोत्तमः ॥ २४ ॥ तस्मिन् सुप्ते
 न वर्तन्ते मन्त्रपूजाः क्रतुक्रियाः । शरत्प्रवृत्तयज्ञोऽयं जागर्ति मधु-
 सूदनः ॥ २५ ॥ तदिदं वार्षिकं चक्रं कारयत्यंबुदेवरः । वैष्णवं
 कर्म कुर्वाणः सुप्ते विष्णौ पुरन्दरः ॥ २६ ॥ या ह्येषा गह्वरा
 माया निद्रेति जगति स्थिता । साकस्माद् द्वेषिणी घोरा काल-

माचीन नहीं है ॥ २० ॥ उन देवका अपने प्रभावका जो चरित्र
 है उससे वैदिक और लौकिक श्रुतियों भरी हुई है ॥ २१ ॥
 लोकोंका कल्याण चाहने वाले श्रीकृष्ण उत्पत्तिके समय प्रकट
 होते हैं और मधुसूदन लोकोंका अभाव करनेके लिये जाग उठते
 हैं ॥ २२ ॥ इन अव्यय विष्णुको सोकर जागने पर भी जब
 देवता नहीं देखसके तब वे (आविर्भावकालमें भी) आपाठी-
 एकादशीसे कार्तिकी एकादशी तक शयन करते हैं, फिर जागते
 हैं ॥ २३ ॥ वे ही यज्ञ वेद और सब यज्ञांग हैं और यज्ञ करने
 पर मिलने वाली गति भी वही पुरुषोत्तम है ॥ २४ ॥ उनके
 सोने पर मन्त्रोंसे पवित्र होने वाली यज्ञक्रियाएँ नहीं होती हैं,
 यह मधुसूदन शरद् ऋतुमें यज्ञको प्रवृत्त करनेके लिये जागते हैं
 (श्रुतिमें लिखा है, कि "शरदि वाजपेयेन यजेत् शरद् ऋतुमें
 वाजपेय यज्ञ करे) ॥ २५ ॥ अत एव मेघोंका ईश्वर पुरन्दर
 विष्णुके शयन करने पर वर्षा ऋतुमें होने वाले वर्षारूप वैष्णव
 कर्मको करता है ॥ २६ ॥ (विष्णुके जागनेमें यज्ञ कारण है, यह
 कह ही दिया अब निद्राके निमित्तको कहते हैं) जो राजाओंका

रात्रिर्महीक्षिताम् ॥ २७ ॥ तस्यास्तनुस्तपोद्वारा निशादिवस-
 नाशिनी । जीवितार्थहरा घोरा सर्वपाणभृता भुवि ॥ २८ ॥
 नैतया कृषिदाविष्टो जृम्भमाणी मुहुर्मुहुः । शक्तः प्रसहितं वेगं
 मञ्जन्निव महार्णवे ॥ २९ ॥ अन्नजा भुवि मर्त्यानां श्रमजा वा
 वा कथंचन । सैषा भवति लोकस्य निद्रा सर्वस्य लौकिकी ३०
 स्वमान्ते क्षीयते क्षेया प्रायशो भुवि देहिनाम् । मृत्युकाले च
 भूतानां प्राणान्नाशयते भृशम् ॥३१॥ देवेष्वपि धारैनां नान्यो
 नारायणादृते । सखी सर्वहरस्यैषा माया विष्णुशरीरजा ॥३२॥
 सैषा नारायणमुखे दृष्टा कमललोचना । लोकानन्पेन कालेन
 अरुस्मात् संहार करने वाली घोर काल रात्रि है वह तपोमयी
 माया जगत्में स्थित रहती है उसके उदय होने पर विष्णु
 (हिंसा आदि दोषका उदय होने पर) सोजाते है (यही तामसी
 माया निशारूपसे और निद्रारूपसे सबको मोहमें डालती है,
 यही वात इम श्लोकमें कहते हैं) उसका शरीर अन्धकारका
 द्वार है और वह दिनका नाश करने वाली निशा कहलाती है
 और वह मनुष्योंके आधे जीवनका हरण करती रहती है २८
 इसके संचार होने पर निद्रासे घिर कर जँभाई लेता हुआ कोई
 मनुष्य भी समुद्रमें डूबते हुए मनुष्यकी समान (अशक्त होनेके
 कारण) इसके वेगको नहीं सह सकता ॥ २९ ॥ यह निद्रा
 पृथ्वीमें प्राणियोंको अन्न वा श्रमके कारण आया करती है ।
 यह लौकिकी निद्रा जगत्में सबको आती है ॥३०॥ यह पृथ्वीमें
 प्राणियोंके शयन करनेके अनन्तर जाती रहती है और यह
 मृत्युके समय प्राणियोंके प्राणाका नाश कर डालती है ॥३१॥
 देवताओंमें भी नारायणके अतिरिक्त इसको और कोई धारण
 नहीं करसकता, यह विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुई माया सर्व-
 हर (कालकी) सखी है ॥ ३२ ॥ यह कमललोचना लो-

ग्रसते लोकनोहिनी ॥ ३३ ॥ एवमेवा हितार्थाय लोकानां कृष्ण-
वर्त्मना । त्रियते सेवनीया हि पत्येव च पतिव्रता ॥ ३४ ॥ स
तया निद्रयाच्छन्नस्तस्मिन्नारायणाश्रमे । शोते विभुः सदा विष्णु
मोहयञ्जगदव्ययः ॥ ३५ ॥ तस्य वर्षसहस्राणि शयानस्य महा-
रपनः । जग्मुः कृतयुगं चैव त्रेता चैव युगोत्तमम् ॥ ३६ ॥ स
तु द्वापरपर्यन्ते ज्ञात्वा लोकान् सुदुःखितान् । प्राबुध्यत महातेजाः
स्तूपमानो महर्षिभिः ॥ ३७ ॥ ऋषय ऊचुः । जहीहि निद्रां
सहजां भुक्तपूर्वामिव स्रजम् । इमे ते ब्रह्मणा सार्धं देवा दर्शन-
कांक्षिणः ॥ ३८ ॥ इमे त्वां ब्रह्मनिद्रांसो ब्रह्मसंस्तववादिनः ।

मोहिनी नारायणके मुग्धमें आने पर अल्पाकालमें ही मनुष्योंका
ग्रास करजाती है ॥ ३३ ॥ (खाये हुए अन्न आदिका भली
प्रकार पाक होजाय और श्रम दूर होजाय) इस हितके लिये
निद्राका सेवन करना चाहिये उसको (परमेश्वर) सूक्ष्ममार्गसे
धारण करते हैं (अर्थात् मेरे निद्रा लेने पर मेरे उदरमें स्थित
सब लाक भी विश्राम लेने लगें) और पतिव्रताकी समान पतिके
साथ रहकर हित करती रहती है ॥ ३४ ॥ (इस प्रकार महा-
निद्राके प्रसंगकी समान ईश्वरकी वर्षाकाल और पतिदिनकी
निद्राको समझ लेना चाहिये) विभु विष्णु अपने नारायणा-
श्रममें उस निद्रामें भर कर जगत्को मोहमें डालते हुए सोते
रहते हैं ॥ ३५ ॥ जब उन महात्माको सोते २ युगोंमें उत्तम
युग सत्ययुग बीत गया और त्रेतायुग भी बीत गया और
(द्वापरके भी) सहस्रों वर्ष बीत गए ॥ ३६ ॥ तब द्वापरके
अन्तमें मनुष्योंको दुःखी जान कर ऋषियोंने उनकी स्तुति की
तब वे जागे-३७ ऋषियोंने कहा, कि-हे भगवन् ! आप अपनी
स्वाभाविकी निद्राको भोगी हुई मालाकी समान त्याग दीजिये,
ये ब्रह्मा और ऋषि आपका दर्शन करनेकी इच्छा कर रहे हैं-३८

वर्धयन्ति हृषीकेश ऋषयः संशितव्रताः ॥ ३६ ॥ एतंपामात्म-
भूतानां भूतानां भूतभावन । शृणु विष्णो शुभा वाचो भूव्यो-
माग्न्यनिलाभसाम् ॥ ४० ॥ इमे त्वां सप्त मुनयः सहिता मुनि-
मण्डलैः । स्तुवन्ति देव दिव्याभिर्गेयाभिर्गीभिरंजसा ॥ ४१ ॥
उत्तिष्ठ शतपत्रान्त पद्मनाभ महाद्युते।कारणं किञ्चिदुत्पन्नं देवानां
कार्यगौरवात् ॥ ४२ ॥ वैशम्पायन उवाच । स संक्षिप्य जलं
सर्वं तिमिरौघं विदारयन् । उदत्तिष्ठद्दृष्टीकेशः श्रिया परमया
ज्वलन् ॥ ४३ ॥ स ददर्श सुरान् सर्वान् समेतान् सपितामहान् ।
विवक्षतः प्रक्षुभितान् जगदर्थे समागतान् ॥ ४४ ॥ तानुवाच
हरिर्देवो निद्राविश्रान्तलोचनः । तत्त्वदृष्टार्थया वाचा धर्महेत्वर्थ-

हे हृषीकेश ! ये प्रशंसित व्रतवाले वेदवेत्ता ऋषि वेदके स्तोत्रों
को पढ़कर आपकी कीर्तिको बढा रहा है ॥ ३६ ॥ हे भूतभावन !
हे विष्णो ! आप इन पृथ्वी आकाश अग्नि पवन और जलके
अधिष्ठात्री देवता भूतोंकी शुभ वाणिगोंको सुनिये ॥ ४० ॥
हे देव ! ये सप्तर्षि ऋषियोंको साथमें लेकर कीर्तनीय दिव्य
स्तुतिके पदोंसे आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥ ४१ ॥ हे पद्मनाभ !
हे महाद्युते ! हे शतपत्रपत्नीकी समान नेत्र वाले भगवन ! आप
उठिये ! देवताओंको कार्य बहुत बडा है (यह आप जानते ही
हैं) उसमें कुछ कारण (निद्रा) पड रहा है ॥ ४२ ॥ वैशम्पा-
यन जीने कहा, कि—उस समय हृषीकेश जलका संक्षेप करके
(अर्थात् अखण्डानन्दका संक्षेप कर अपनेको उपाधिके आवेशसे
अल्प बना कर) परमशोभासे दिन सारे अन्धकारको विदीर्ण
करते हुए उठ बैठे ॥ ४३ ॥ तब उन्होंने मनमें घबड़ा कर जगत्का
हित करनेकी बात कहनेके लिये पितामह और देवताओंको
सामने खड़े देखा ॥ ४४ ॥ तब जिनके नेत्रोंने निद्रा लेकर
विश्राम कर लिया था एसे श्रीकृष्णने धर्मसे भरी हुई तत्व बात

युक्तया ॥४५॥ श्रीभगवानुवाच । कुतो वो विग्रहो देवाः कुतो
वोऽभयमागतम्, कस्य वा केन वा कार्यं किं वा मयि न वर्तते ४६
किं न खल्वकुशलं लोके वर्तते दानवोत्थितम् । नृणामायासज-
ननं शीघ्रमिच्छामि वेदितुम् ॥४७॥ एष ब्रह्मविदां मध्येः विहाय-
शयनोत्तमम् । शिवाय भवतामर्थे स्थितः किं करवाणि वः ४८
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि विष्णोर्योग-
शयनोत्थानं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥

वैशम्पयिन उवाच । तच्छ्रुत्वा विष्णुगदितं ब्रह्मा लोकपिता-
महः । उवाच परमं वाक्यं हितं सर्वदिवोकसाम् ॥ १ ॥ नास्ति
किञ्चिद्भयं विष्णो सुराणामसुरान्तक । येषां भवानभयदः कर्ण-
धारो रणे रणे ॥ २ ॥ शक्रे जयति देवेशे त्वयि, चासुरसूदने ।

कही ॥ ४५ ॥ श्रीभगवान्ने कहा, कि-हे देवताओं ! तुम्हारे
साथ कौन लड़ पड़ा है ! तुम्हें किससे भय लग रहा है, मुझे
किस देवताका क्या कार्य करना चाहिये, ऐसा कोई काम नहीं
जिसको मैं न कर सकूँ ॥ ४६ ॥ क्या दानवोंने जगत्में कुछ
उपद्रव मचा रक्खा है ? अथवा वे मनुष्योंको कुछ आयास
(कष्ट) दे रहे हैं ? वताओ ! मैं शीघ्रतासे इस बातको जानना
चाहता हूँ ॥ ४७ ॥ मैं ब्रह्मवेत्ताओंके सामने अपने श्रेष्ठ शयन
को छोड़ कर तुम्हारा कल्याण करनेके लिये उठ खड़ा हुआ
हूँ, वताओ ! मैं तुम्हारा क्या कार्य करूँ ॥ ४८ ॥ पचासवाँ
अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥

वैशंपायनजीने कहा, कि-लोकोंके पितामह ब्रह्मा जी विष्णु
के भाषणको सुन कर सब देवताओंका हित करने वाले उत्तम
वाक्यको कहने लगे ॥ १ ॥ कि-हे विष्णो ! हे असुरान्तक !
आप मत्के रणमें जिनको अभय देते रहते हैं उनके ऊपर कोई
आपत्ति कैसे पड़ सकती है ॥ २ ॥ देवेश इन्द्रके और शत्रुओंके

धर्मं प्रयतमानानां मानवानां कुतो भयम् ॥ ३ ॥ सत्यधर्मं च
निरतान् मानवान् विगतञ्जरानानाकाले धर्मिणो मृत्युः शक्नोति
प्रसमीक्षितुम् ॥ ४ ॥ मानवानां च पतयः पार्थिवारच परस्परम् ।
पट्भागमुपभृञ्जाना न भेदं कुर्वते मिथः ॥ ५ ॥ ते प्रजानां शुभ-
कराः करदौरवगर्हिताः । सकरैर्विप्रयुक्तार्थाः कोशानापूरयन्त्युतद-
स्फीताञ्जनपदान् सर्वान् पालयन्तः क्षमापराः । अतीक्ष्णदंडा-
श्चतुरो वर्णान् जुगुपुरंजसा ॥ ७ ॥ नोद्वेजनीया भूतानां सचिवैः
साधुपूजिताः । चतुरंगवर्णैर्गुप्ताः पट्गुणानुपभृञ्जते ॥ ८ ॥ धनु-
र्वेदपराः सर्वे सर्वे वेदेषु निष्ठिताः । यजन्ते च यथाकालं यज्ञै-
र्विपुलदक्षिणैः ॥ ९ ॥ वेदानधीत्य दीक्षाभिर्महर्षीन् ब्रह्मचर्यया ।

नाशक आपके वर्तमान होने पर धर्ममें लगे रहने वाले मनुष्योंको
किस बातका डर होसकता है ॥ ३ ॥ सत्यधर्ममें परायण रहने
वाले सन्ताप रहित धार्मिक मनुष्योंको तो कुसमयमें मृत्यु भी
आँख उठा कर नहीं देख सकती ॥ ४ ॥ और मनुष्योंके स्वामी
राजे भी प्रजासे क्रममें छटा हिस्सा लेने हैं, और उन्होंने परस्पर
में युद्ध करना भी त्याग दिया है ॥ ५ ॥ उन प्रजाका शुभ करने
वालोंका कर देने वाले सत्कार करते हैं और वे यथोचित कर
लेकर अपने कोशोंको भर लेते हैं ॥ ६ ॥ वे सब क्षमापरायण
राजे अपने २ विस्तृत राज्योंका पालन कर रहे हैं और कोमल
दण्ड देते हुए अपनी चातुर्वर्ण्य प्रजाकी भली प्रकार रक्षा कर
रहे हैं ॥ ७ ॥ वे प्राणियोंको घबड़ाहटमें नहीं डालते हैं और
मंत्री उनका भली भाँति सत्कार करते हैं और वे अपने यहाँ चतु-
रंगिणी सेना रखते हैं तथा वे (नीतिशास्त्र में कहे हुए संधि
विग्रह यान आसन द्वैधीभाव और समाश्रय नामक) छः गुणों
सेवन करते हैं ॥ ८ ॥ वे सब धनुर्वेदमें परायण रहते हैं और वे
सब वेदोंका अनुष्ठान करते हैं और वे समय २ पर अनेक प्रकार

श्राद्धैरच मेधैः शतशस्तर्पयन्ति पितामहान् ॥ १० ॥ नैषाम-
चिदित किञ्चित्त्रिविधं भुवि हरयते । वैदिकं लौकिकं, चैव धर्म-
शास्त्रोक्तमेव च ॥ ११ ॥ ते परावरदृष्टार्था महर्षिसमतेजसः ।
भूयः कृतयुगं कर्तुं सुत्सहते नराधिपाः ॥ १२ ॥ तेषामेव प्रभा-
वेण शिवं वर्पति वासवः । यथार्थं च बबुर्वाणा विरजस्का दिशो
दश ॥ १३ ॥ निरुत्पाता च वसुना सुप्रचारश्च खे ग्रहाः । चंद्र-
माश्च सप्तक्षत्र, सौम्यं चरवि योगतः ॥ १४ ॥ अनुलोगकरः
सूर्यस्त्वयने द्वे चचार ह । हव्यैश्च विविधैस्तुतः शुभगन्धो हुता-
शनः ॥ १५ ॥ एव सम्यम्पटत्तेषु विदृष्टेषु मखादिषु । तर्पयत्सु

की दक्षिणा देकर यज्ञ करते रहते हैं ॥ ६ ॥ वे वेद पढ़ कर तथा
ब्रह्मचर्यपूर्वक अनेक दीक्षाओंको ग्रहण कर महर्षियोंको तृप्त करते
हैं और अनेक प्रकारके पवित्र श्राद्ध करके पितामह आदिको तृप्त
करते हैं ॥ १० ॥ ये वैदिक लौकिक और धर्मशास्त्रमें कही हुई
इन तीन बातोंमेंसे किसी बातसे भी अनजान नहीं है ११ वे पर
और अवर ब्रह्महो देखने वाले महर्षिकोंकी समान तेजस्वी राजे
फिर कृतयुग लाना चाहते हैं अर्थात् वे धर्ममें पापका लेश भी नहीं
रहे इसका प्रयत्न कर रहे हैं १२ उनके ऐसे मतापके कारण इन्द्रको
कन्याएँ करनेवाली वर्षा बरसानी पड़ती है और पवनको भी
यथार्थ रीतिसे चलना पड़ता है और दशाँ दिशाएँ निर्मल रहती हैं
इस समय पृथ्वीमें कोई उत्पात नहीं हो रहा है और आकाशमें
ग्रह अपनी इच्छानुसार विचरण कर रहे हैं आर चन्द्रमा भी
नक्षत्रोंसहित सौम्यगतिसे विचरण कर रहा है ॥ १४ ॥ सूर्य
अनुलोमगतिसे दोनों अयनोंमें विचरण कर रहा है और शुभ
गन्ध वाले हुताशन नाना प्रकारके हव्योंसे तृप्त रहते हैं ॥ १५ ॥
जब राजे इस प्रकार धर्ममें भली भाँति प्रवृत्त हो रहे हैं, और यज्ञ
आदिका प्रचार बढ़ रहा है तब पृथ्वी भली प्रकार तृप्तकी जा

महीं कृत्स्नां नृणां कालभयं कुतः ॥ १६ ॥ तेषां ज्वलितकीर्ति-
नामन्योन्यत्रशक्तिनाम् । राज्ञां बलैर्वल्लभतां पीडयते वसुधातलम्
सेयं भारपरिश्रान्ता पीडयमाना नराधिपैः । पृथिवी समनुप्राप्ता
नौरिवासन्नविसवा ॥ १८ ॥ युगांतसदृशै रूपैः शैलोच्चलित-
बन्धना । जलोत्पीडाकुला स्वेदं धारयन्ती द्रुमुर्मुहुः ॥ १९ ॥
क्षत्रियाणां वपुर्भिरच तेजसा च बलेन च । नृणां च राष्ट्रैर्वि-
स्तीर्णैः श्राम्यतीव वसुन्धरा ॥ २० ॥ पुरे पुरे नरपतिः कोटि-
संख्यैर्वलैर्वृतः । राष्ट्रे राष्ट्रे च बहवो ग्रामाः शतसहस्रशः ॥ २१ ॥
भूमिपानां सहस्रैश्च तेषां च बलिनां वलैः । ग्रामायुताथै राष्ट्रैश्च

रही है तो मनुष्योंको कालका भय कैसे होसकता है ॥ १६ ॥
परन्तु उन, आपसमें मिल कर चलने वाले और प्रज्वलित कीर्ति
वाले राजाओंकी सेनासे पृथिवी दबी जा रही है १७ राजाओं
के भारसे धरु कर पीड़ा पाती हुई पृथिवीकी, इस समय डूबने
को उद्यत हुई नौकाकी सघान, स्थिति होरही है ॥ १८ ॥ पृथिवी
मलय कालकी अग्निकी समान रूप वाले राजाओंसे पीड़ा पारही
है, जैसे जलमें लोहेकी फीलोंसे रुकी हुई नाव आंधीसे भी नहीं
हिलती है इसी प्रकार (पृथिवी) शैल रूपी (फीलोंसे) जलमें
रुकी हुई है परन्तु उसके वे पर्वत (रूपकीर्ण) इस समय ढीले
होरहे हैं अतः एव वह जलके ऊपर आनेसे चारम्बार गीलीसी
होती जा रही है (अर्थात् बंधनोंके ढीले होनेसे पृथिवीरूप नौका
के भीतर चारवार जल आने लगा है) ॥ १९ ॥ क्षत्रियोंके
शरीर तेज और बलसे तथा मनुष्योंके फैलेहुए राज्योंसे पृथिवी
थकीसी जा रही है ॥ २० ॥ प्रत्येक नगरमें राजाओंके पास
करोड़ों फौजें हैं और प्रत्येक राष्ट्रमें सैकड़ों और सहस्रों ग्राम
होगए हैं ॥ २१ ॥ सहस्रों राजे और उन बलवानोंकी सेनाएँ
लाखों ग्राम तथा राष्ट्रोंसे भूमिमें (इतनाभी) छेद नहीं रहा, कि-

भूमिनिर्विचारा कृता ॥ २२ ॥ सेयं निरामयं कृत्वा निश्चेष्टा
कालमग्रतः । प्राप्ता ममालये विष्णो भवांश्चास्याः परा गतिः २३
कर्मभूमिर्मनुष्याणां भूमिरेषा व्यथां गता । यथा न सीदेत्तत्कार्यं
जगत्पेषा हि शाश्वती ॥ २४ ॥ अस्या हि पीडने दोषो महान्
स्यान्मधुसूदन । क्रियालोपश्च लोकानां पीडितं च जगद्भवेत् २५
श्राम्यते व्यक्तमेवेयं पार्थिवौघमपीडिता । सहजां या क्षमां त्यक्त्वा
चलत्वमचला गता ॥ २६ ॥ तदस्याः श्रुतवन्तः स्म तच्चापि
भवता श्रुतम् । भारावतरणार्थं हि मन्त्रयाम सह त्वया ॥ २७ ॥
सत्पथे हि स्थिताः सर्वे राजानो राष्ट्रवर्धनाः । नराणां च त्रयो
वर्णा ब्राह्मणाननुयायिनः ॥ २८ ॥ सर्वे सत्यपरं वाक्यं वर्णा

वह श्वास भी ले सके) ॥ २२ ॥ यह पृथिवी निश्चेष्ट हो
निरामय कालको साथमें लेकर मेरे स्थान आई थी, हे विष्णो !
अब आपही इसकी परा गति है । (अर्थात् प्राणियोंको तो इस
समय कोई आमि (व्याधि) भी नहीं होती तो उनकी मृत्यु तो
होगी ही कहाँसे अतः पृथिवी बड़ी दृढ़ रही है) २३ यह संसारमें
रहने वाली गनुष्योंकी शाश्वती कर्म भूमि व्यथा पाकर (मट्टी
के टूलेकी समान) बिखर न जाय तैसा करना चाहिये ॥ २४ ॥
हे मधुसूदन ! इसके पीड़ित होने पर बड़ा भारी उपद्रव होगा
क्रियाएँ लुप्त होजावेंगी और जगत् उत्पीड़ित होने लगेगा २५
यह राजाओंसे पीड़ित पृथिवी थक रही है, यह स्पष्ट ही है,
योंकि- यह अचला अपनी स्वाभाविकी क्षमाको त्याग कर
चलने लगी है ॥ २६ ॥ हमने इसकी ये सब बातें सुनी थीं और
आपने भी यह बातें सुनली, अतः अब हम इसका भार दूर
करनेके लिये आपके साथ मंत्रणा करना चाहते हैं ॥ २७ ॥
सब राजे सन्मार्गमें रह कर अपने राज्यको बढ़ा रहे हैं और
तीनों वर्ण भी ब्राह्मणोंके अनुयायी बन रहे हैं ॥ २८ ॥ सब

धर्मपरास्तथा । सर्वे वेदपरा विप्राः सर्वे विपपरा नराः ॥ २६ ॥
 एवं जगति वर्तन्ते मनुष्या धर्मभारखात् । यथा धर्मवरो न
 स्यात्तथा मन्त्रः प्रवर्त्यताम् ॥ ३० ॥ सतां गतिरियं नान्पाधर्म-
 रचास्याः सुसाधनम्राज्ञां चैव बधःकार्यो धरण्या भारनिर्णये ३१
 तदागच्छ महाभाग सह वै मन्त्रकारणात् । ब्रजामो मेरुशिखरं
 पुरस्कृत्य वसुन्धराम् ॥ ३२ ॥ एतावदुक्त्वा राजेन्द्र ब्रह्मा लोक-
 पितामहः । पृथिव्या सह विश्वात्मा विरराम महाद्युतिः ॥ ३३ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेपु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि भारी-
 वतरणे एकपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥

वैशम्पायन उवाच । वाढमित्येव सह तैर्दुर्दिनाभोदनिःस्वनः ।
 प्रतस्थे दुर्दिनाकारः स दुर्दिन इवाचलः ॥ १ ॥ स मुक्तामणि-

वाक्य सत्यका आश्रय लेकर ही उच्चारण किये जाते हैं और
 सब वर्ण धर्मपरायण हैं, सब ब्राह्मण वेदमें परायण रहते हैं
 और सब मनुष्य ब्राह्मणोंके अनुकूल रहते हैं ॥ २६ ॥ धर्मके
 कारण मनुष्य जगत्में इस प्रकारका व्यवहार कर रहे हैं, परन्तु
 धर्म जिस प्रकार न दवे तैसी मंत्रणा करनी चाहिये ॥ ३० ॥
 यही सज्जनोंकी गति है और इसका साधन यही है, कि-पृथिवी
 का भार (उतारनेका)निर्णय करनेके लिये राजाओंका बध होना
 चाहिये ॥ ३१ ॥ हम मन्त्रणा करनेके लिये पृथिवीको साथमें
 लेकर मेरुपर्वतके शिखर पर जाते हैं, हे महाभाग ! आप भी
 तहाँ चलिये ३२ विश्वकी आत्मा लोकपितामह महाकान्तिवान्
 ब्रह्माजी और पृथिवी इनकी बात कह कर चुप हो गए ॥ ३३ ॥
 इत्यावनर्वा अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥

वैशंपायनजीने कहा, कि-मेघकी समान गर्जने वाले और मेघ
 की समान आकार वाले अचल श्री कृष्ण बहुत अच्छा कह कर
 मेघकी समान चलने लगे ॥ १ ॥ श्रीकृष्णके उदर तक जटाएँ

विद्योतं सचन्द्राम्भोदवर्चसम् । स जटामण्डलं कृत्स्नं विभ्रत्
 कृष्णवर्षहरिः ॥ २ ॥ स चास्योरसि विस्तीर्णं रोमांचोद्धत-
 राजिमान् । श्रीवत्सो राजते श्रीमांस्तनद्वगमुखांचितः ॥ ३ ॥
 पीतेवसानो वसने लोकानां गुरुरव्ययः । हरिः सोऽभवदालक्ष्यः
 ससं-याभ्र इवाचलः ॥ ४ ॥ तं व्रजन्तं सुपर्णेन पद्मगोनिगता-
 नुगम् । अनुगम्युः सुराः सर्वैतद्गतासक्तचक्षुषः ॥ ५ ॥ नाति-
 दीर्घेण कालेन संपाप्ता रत्नपर्वतम् । ददृशुर्देवतास्तत्र तां सभां
 कामरूपिणीम् ॥ ६ ॥ मेरोः शिखरविन्गस्तां संयुक्तां सूर्यवर्चसा ।
 कांचनस्नग्भरवितां वज्रमं-त्रानगोरणाम् । मनोनिर्माणचित्राढ्यां
 विमानशतपालिनीम् । रत्नमालांतरवतीं कामगां रत्नभूषिताम्-

लट्ट रु रही थी और उनका शरीर मुक्ता और मणियोंसे दिप
 रहा था उस समय वह जिसमें चन्द्रमा खिल रहा है तैसे मेरुकी
 समान दीखते थे ॥ २ ॥ उनके वनःस्थल पर खड़े हुए चालों
 की रेखा बन रही थीं उनमें जिसकी दोनों स्तनमुख पूजा कर
 रहे थे ऐमा श्रीवत्स शोभा देरहा था ॥ ३ ॥ लोकोंके गुरु अच्युत
 हरि पीले और वाले काड़ेको पहिने हुए सं-याकालके बादलों
 से घिरे हुए पर्वतकी समान दीखते थे ॥ ४ ॥ जब वह गरुड़ पर
 बैठ कर चलने लगे तब ब्रह्माजी उनके पीछे २ चलने लगे और
 सब देवता भी उनकी ओर देखते हुए चलने लगे ॥ ५ ॥ थोड़े
 ही समयमें वह रत्नपर्वतके समीप पहुँच गए तहाँ पर देवताओंने
 इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सभाको देखा ॥ ६ ॥ वह
 सभा मेरुपर्वनके शिखर पर बसी हुई थी और मूर्तिके तेजसे संयुक्त
 थी और उसमें सुवर्णके स्तम्भ बन रहे थे और उसमें रत्नोंके
 तोरण बन रहे थे । ७ ॥ वह अपने मनसे बनाये हुए बहुतसे
 चित्रोंसे सज रही थी और उसमें सैकड़ों विमानोंकी लैंगारे खड़ी
 हुई थी उसमें रत्नोंके भूरोखे बने हुए थे और वह इच्छानुसार

सर्वरत्नसमाकीर्णा सर्वतृकुसुमोत्कराम् । देवमायाधरां (द्वयं
 विहितं विश्वकर्मणा तां हृष्टमनसः सर्वं यथास्थानं यथाविधि ।
 यथानिदेशं त्रिदशा विविशुस्ते सभां शुभाम् ॥ १० ॥ ते निपे-
 दुर्यथोक्तेषु विमानेष्वसनेषु च । भद्रासनेषु पीठेषु कुशास्तवास्तर-
 णेषु च ॥ ११ ॥ ततः प्रभंजनो वायुर्ब्रह्मणा साधुचोदितः । मा
 शब्दमिति सर्वत्र प्रचक्रामाथ तां सभाम् ॥ १२ ॥ निःशब्दस्ति-
 मिते तस्मिन् समाजे त्रिदिवीकसाम्प्रदाये धरणी वाक्यं खेदात्
 करुणभाषिणी ॥ १३ ॥ धरण्युवाच । त्वया धार्या ह्यहं देव
 त्वया वा धार्यते जगत् । त्वं धारयसि भूतानि भुवनानि विषपिं
 च ॥ १४ ॥ यत्त्वया धार्यते किञ्चित्तेजसा च बलेन च । ततस्तत्र
 मसादेन मया यत्नाच्च धार्यते ॥ १५ ॥ त्वया धृतं धारयामि

विचरण करती थी और रत्नोंसे विभूषित लगती थी उसमें
 सब प्रकारके रत्न लग रहे थे और सब ऋतुओंके पुष्प लग
 रहे थे और देवताओंकी मायाको धारण कर रही थी
 और विश्वकर्मकी बनाई हुई थी ॥ ६ ॥ उस शुभ सभामें
 सब देवता (ब्रह्माजीकी) आज्ञाके अनुसार मनमें प्रसन्न
 होते हुए बैठ गए ॥ १० ॥ वे अपने लिये (शास्त्रोंमें)
 वर्णन किये हुए विमान आसन भद्रासन पटले झूल और
 विज्ञानों पर बैठ गए ११ तदनन्तर ब्रह्माजीके गेरणा करने पर
 प्रभंजननामक वायु चुप रहिये कहता हुआ सभामें घूम आया १२
 जब देवताओंके समाजमें सन्नाटा छागया उस समय खिन्न
 होकर करुणामय शब्दोंमें पृथिवी कहने लगी १३ पृथिवीने कहा
 कि-हे देव ! आप मुझे धारण करते रहने हैं, आप जगत्को
 धारण करे रहते हैं, आप भूतोंको धारण कर रहे हैं और आप
 भुवनोंका भी पालन कर रहे हैं १४ आप अपने तेजसे और
 बलसे जिस वस्तुको धारण करते हैं उसको मैं ही आपके मसाद

नाधृतं धारयाम्यहम् । न हि तद्विद्यते भूतं यत्त्वया नानुचार्यते १६
 त्वमेव-कुरुणे देव नारायण युगे युगे । मम भारवतरणं जगतो
 हितकाम्यया ॥ १७ ॥ तवैव तेजसाक्रांतां रसातलतलंगताम् ।
 त्रायस्व मां सुरश्रेष्ठ तवैव शरणं गताम् ॥ १८ ॥ दानवैः पीडय-
 मानाऽहं राक्षसैश्च दुरात्मभिः । त्वमेव शरणं नित्यमुपयांस्ये
 सनातनम् ॥ १९ ॥ तावन्मेऽस्ति भयं भूयो यावन्न त्वां ककुब्धि-
 नम् । शरणं यांमि मनसा शतशो ह्युपलक्षये ॥ २० ॥ अहमादौ
 पुराणस्य संक्षिप्ता पद्मयोनिना । मां च बध्वा कृतौ पूर्वं मृन्मयौ
 द्वौ महासुरौ ॥ २१ ॥ कर्णस्रोतोद्भवां तौ हि विष्णोरस्य महा-
 त्मनः । महार्णवे प्रस्वपतः काष्ठकुड्यसमौ स्थितौ ॥ २२ ॥ तौ

से यत्न करके धारण कर सकती हूँ १५ में आपकी धारणकी हुई
 वस्तुको ही धारण कर सकती हूँ और जिसको आप नहीं धारण
 करते हैं उसको मैं धारण नहीं कर सकती, ऐसा कोई माणी
 नहीं है जिसको आपने धारण न कर रक्खा हो १६ हे देव !
 आप ही प्रत्येक युगमें जगत्का हित करनेकी इच्छासे मेरा भार
 उतारा करते हैं १७ हे सुरश्रेष्ठ ! मैं आपके (दुष्ट राजारूप)
 तेजसे दब कर रसातलमेंके घँसी जा रही हूँ, हे सुरश्रेष्ठ ! अब
 मैं आपकी शरणमें पड़ कर कहती हूँ, कि-आप मेरी रक्षा
 करिये १८ दुरात्मा राक्षस और दानव जब २ मुझे दुःख देते
 हैं, तब २ मैं आप सनातन पुरुषकी शरण लिया करती हूँ १९
 मुझे तो जब तक ही डर लगता रहता है जब तक मैं आपकी
 मनमें शरण नहीं लेती हूँ, इस बातकी मैंने सौकड़ों बार परीक्षा
 की है २० पैंसोंका प्रचार होनेसे पहिले पद्मयोनि ब्रह्माजीने मुझे
 गली प्रकार देखा था और मुझे बाँधकर मृन्मय मधु कैटभ नाम
 वाले राक्षसोंके (आपने) मार डाला था ॥२१॥ जब महात्मा
 विष्णु समुद्रमें सोरहे थे तब उनके कानोंके गोखरोंमेंसे

विवेश स्वयं वायुर्व्रह्मणा साधु चोदितः । दिवं प्रच्छादयंतौ तु
 वृष्टधाने महासुरौ ॥ २३ ॥ वायुः प्राणौ तु तौ शुद्ध ब्रह्मा पर्य-
 मृशच्छनैः । एकं मृदुरं येने कठिनं वेद चापरम् ॥ २४ ॥ नामनी
 तु तयोरनके स विशुः सखिलोद्भवः । मृदुस्त्वयं मधुनाम कठिनः
 कंडभोऽभवत् ॥ २५ ॥ तौ दैत्यौ कृतनामानौ चेरतुर्वलदपिती ।
 सर्वमेकार्णवं लोकं योद्धुक्कामौ सुदुर्जयौ ॥ २६ ॥ तावागतौ सगा-
 लोक्य ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ एकार्णवांबुनिचये तत्रैवान्तरधीयत २७
 स पद्मे पद्मनाभस्य नाभिमध्यात् समुत्थिते । रोचयामास वसतिं
 शुद्धां ब्रह्मा चतुर्मुखः ॥ २८ ॥ तावुभौ जलगर्भस्थौ नारायण-
 पितामहौ । बहून् वर्षगणानभ्यु शयानौ न चकम्पतुः ॥ २९ ॥
 अथ दीर्घस्य कालस्य तावुभौ मधुकैटभौ । आजगमतुस्तमुद्देशं

उत्पन्न हुए थे और काष्ठ और दीवारकी समान अचेतन थे २२
 तब ब्रह्माजीके साधुभावसे प्रेरणा करने पर (प्राण) वायुने
 उनमें प्रवेश किया, तब वे महासुर आकाशमेंको बढ़ने लगे २३
 उस समय प्राणवायु पड़े हुए उन दोनों दानवोंको ब्रह्माजीने छुआ
 तो उन्होंने जाना कि-इसमें एक तो पद्म कोमल है और दूसरा
 कड़ा है ॥ २४ ॥ तब जलमेंसे उत्पन्न हुए विशु ब्रह्माजीने उन
 के नाम रखे कि यह मृदु है अतः इसका नाम मधु है और जो
 कठिन है इसका नाम कैटभ है ॥ २५ ॥ तब बलने घमण्डमें भरे
 हुए वे दुर्जय दैत्य नामकरण होने पर समुद्रमय संसारमें युद्ध
 करनेकी इच्छासे विचरण करने लगे ॥ २६ ॥ लोकपितामह
 ब्रह्माजी एकार्णवरूप जलसमूहमें उन दैत्योंको आते देख कर
 अन्तर्धान होगए ॥ २७ ॥ उस समय चार मुख वाले ब्रह्माजी
 ने पद्मनाभकी नाभिके मध्यमेंसे निकले हुए कमलमें सुप्त रह कर
 रहना श्रद्धा समझा ॥ २८ ॥ वे दोनों नारायण और पितामह
 जलके मध्यमें शयन करने पर अनेक वर्षों तक हिले भी नहीं २९

यत्र ब्रह्मा व्यवस्थितः ॥ ३० ॥ दृष्ट्वा तावसुरौ घोरौ महाकायौ
 दुरासदौ । ब्रह्मणा ताडितो विष्णुः पद्मनालेन वै तदा । उत्प-
 पाताथ शयनात् पद्मनाभो महाद्युतिः ॥ ३१ ॥ तद्युद्धमभवद् घोरं
 तयोस्तस्य च वै तदा । एकार्णवे तदा लोके त्रैलोक्ये जलतां
 गते ॥ ३२ ॥ तदाऽभूत्तुमुलं युद्धं वर्षसंख्यासहस्रशः । न च
 तावसुरौ युद्धे तदा श्रमवापतुः ॥ ३३ ॥ अथातो दीर्घकालस्य
 तौ दैत्यौ युद्धदुर्मदौ । ऊचतुः प्रीतमनसौ देवं नारायणं हरिम् ३४
 प्रीनौ स्वस्तव युद्धेन श्लाघ्यस्त्वं मृत्युरावयोः । आनां जहि न
 यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ॥ ३५ ॥ इतौ च तव पुनत्वं प्राप्नु-
 यावः सुरोत्तमायो ह्यावा युधि निर्जेता तस्यानां विदितौ सुतो ३६
 स तु गृह्य मृगे दोर्भ्या दैत्यौ तावभ्यपीडयत् । जग्मतुर्निधनं

बहुत समय बीतने पर मधु और कैशभ नापके दानव ब्रह्माजीके
 रहनेके स्थान पर आड़ी पहुँचे ॥ ३० ॥ ब्रह्माजी उन बड़े २
 शरीर वाले दुरासद घोर दैत्योंको देख कर विष्णुको रुमलकी
 नाल (हिला) मार कर उठाने लगे, तब तो महाकान्तिवान्
 पद्मनाभ सोते २ जाग उठे ॥ ३१ ॥ उस समय जब त्रिलोकीके
 जल वन जानेसे सब समुद्रमय होरहा था उस जलमें मधु तथा
 कैशभसे श्रीकृष्णका घोर युद्ध होने लगा ॥ ३२ ॥ परंतु सहस्रों
 वर्ष घोर युद्ध करने पर भी वे दैत्य श्रीकृष्णको न थका सके ३३
 तब तो बहुत समय बीतने पर उन युद्ध दुर्मद दैत्योंने मनमें प्रसन्न
 होकर परमात्मा देवदगिसे कहा, कि ॥ ३४ ॥ हम तुम्हारे युद्ध
 (कौशल) से परम प्रसन्न हुए हैं, तुमसे हमारी मृत्यु होना
 प्रशंसाकी बात है अब तुम हमको तहाँ पर मार डालो जहाँ पर
 पृथ्वी जलरहित हो ॥ ३५ ॥ और हे सुरोत्तम ! हम मारे जाने
 पर तुम्हारे पुत्र कहलायेंगे (क्योंकि ब्रह्माजीने कह दिया है, कि)
 जो हमको युद्धमें मार लेगा हम दोनों उसके ही पुत्र कहलायेंगे ३६

चापि तावुमी मधुकैटभौ ॥३७॥ती हतो चाप्लुतो तोये वपुर्भ्या-
मेकर्ता गर्तो । मेदो सुमुचतुदैत्यौ मध्यमानौ जलोभिभिः ॥३८॥
मेदसा तज्जलं व्याप्तं ताभ्यामन्तर्दधे ततः । नारायणश्च भग-
वानसृजत् स पुनः प्रजाः ॥३९॥ दैत्ययोर्मैदसाच्छना मेदिनीति
ततः स्मृता । । प्रभावात् पद्मनाभस्य शाश्वती जगती कृता ४५
चराहेण पुरा भूत्वा मार्कण्डेयस्य पश्यतः । विषाणेनाहमेकेन तोय-
मध्यात् समुद्भृता ॥ ४१ ॥ कृताहं क्रमता भूयस्तदा युष्माक-
मग्रनः । बलेः सकाशाद् दैत्यस्य विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ४२ ॥
साम्प्रतं स्वियमानाहमेनमेव गदाधरम् । अनाथा जगतो नाथं
शरण्यं शरणं गता ॥ ४३ ॥ अग्निः सुवर्णस्य गुरुर्वा सूर्यो
तव भगवन्ने रणमें उन दोनोंको अपनी भुजाओंसे पकड़ कर
रगड़ना आरंभ कर दिया तब मधुऔर कैटभ नामक दोनों दैत्यों
ने अपने प्राणोंको त्याग दिया ३७ जब भगवान्ने उन दोनोंको
मार कर जलमें डाल दिया तब उन दोनोंके शरीर गिल गए
और जलकी लहरोंकी टफरोंसे उनके शरीरमेंसे मेद निकलने
लगा ३८ जब जल उनके मेद (चरबी) से व्याप्त होगया तब
अन्तर्धान हो (सूख) गया फिर भगवान् नारायण प्रजाको रचने
लगे ३९ पृथ्वी दैत्योंके मेदसे व्याप्त होनेके कारण मेदिनी
कहलाती है (तहाँ पर भगवान्ने प्रजा रची थी) और पद्मनाभ
के प्रभावसे यह पृथ्वी शाश्वती (सदा रहने वाली) होगई ४०
और आपने मार्कण्डेयजीकी दृष्टिके सामने वराहका रूप धारण
कर अपनी डाढ़से जलमेंसे मेरा उद्धार किया था ॥ ४१ ॥ और
इन प्रभाववान् विष्णुने तुम्हारे सामने भी बलि दैत्यके यहाँ
नाप कर मेरा (उद्धार) किया था ॥४२॥ इस समय भी पसीने
से तर होनेके कारण मैं अनाथ इन गदाधारी जगत्के स्वामी
और सबको शरण देनेवाले विष्णुकी ही शरणमें (फिर) आई

गुरुः स्मृतः । नक्षत्राणां गुरुः सोमो मम नारायणो गुरुः ॥४४॥
 यद्यं धारयाम्येका जगत् स्थावरजंगमम् । मया धृतं धारयते
 सर्वमेतद्भद्राधरः ॥ ४५ ॥ जामदग्न्येन रामेण भारावतरणेऽसया ।
 रोपात् त्रिःसप्तकृत्वाऽहं क्षत्रियैर्विमयोजिता ॥ ४६ ॥ सास्मि वेद्यां
 समारोप्य तर्पिता नृपशोणितैः । भार्गवेण पितुः श्राद्धे कश्यप-
 पाय निवेदिता ॥ ४७ ॥ मांसपेदोस्थिदुर्गन्धा दिग्धा क्षत्रिय-
 शोणितैः । रजस्वलेव युवतिः कश्यपं समुपस्थिता ॥ ४८ ॥
 स मां ब्रह्मर्षिरप्पाह किमुविं त्वमवाङ्मुखी । वीरपत्नीव्रतमिदं
 धारयन्ती विपीदसि ॥ ४९ ॥ साहं विज्ञापितवती कश्यपं लोक-
 भावनम् । पतयो मे इता ब्रह्मन् भार्गवेण महात्मना ॥ ५० ॥

हूँ ॥४३॥ अग्नि सुवर्ण का गुरु कहलाता है और सूर्य किरणोंका
 गुरु है और चन्द्रमा नक्षत्रोंके गुरु हैं और मेरे गुरु तो नारायण
 ही हैं ॥४४॥ मैं अकेली ही स्थावर जंगमात्मक सारे जगत्को
 धारण कर रही हूँ परन्तु मेरी धारण की हुई सब वस्तुओंको
 (और मुझको भी) ये नारायण ही धारण कर रहे हैं ॥४५॥
 जमदग्निपुत्र परशुरामने मेरा भार उतारनेकी इच्छासे क्रोधमें भर
 कर इकीस बार क्षत्रियोंसे मुझे छुड़ादिया था ॥ ४६ ॥ फिर
 उन्होंने राजाओंके रक्तसे मुझे वृष करके वेदीमें (रणस्तंभको) पति-
 ष्ठित कर अपने पिताके श्राद्धमें मुझे कश्यपको दानमें दे दिया
 था ४७ उससमय मेरे शरीरमेंसे मांस पेद और इड्डियोंकी दुर्गन्ध
 निकल रही थी और मैं क्षत्रियोंके रक्तसे सन रही थी, इस
 प्रकार मैं रजस्वला स्त्रीकी समान कश्यपके पास पहुँची ॥४८॥
 तब उन्होंने मुझसे कहा कि-हे पृथिवी! वीरपत्नीके व्रतको धारण
 कर अर्थात् रणमें मारे हुए वीर पुरुषकी पत्नीके व्रतको धारण
 कर नीचेकी मुख करके तू विपाद क्यों कर रही है ॥ ४९ ॥ तब
 मैंने संसारका भला चाहने वाले कश्यपजीसे कहा, कि-हे ब्रह्मन् !

साहं विहीना विक्रान्तैः क्षत्रियैः शस्त्रवृत्तिभिः । विधवा शून्य-
नगरा न धारयितुमुत्सहे ५१ ॥ तन्मह्यं दीयतां भर्ता भगवंस्त्व-
त्समो नृपः । रक्षेत् सग्रामनगरां यो मां सागरमालिनीम् ॥५२॥
स श्रुत्वा भगवान् वाक्यं वाढमित्यत्रवीत् प्रभुः । ततो मां मान-
वेन्द्राय मनवे संप्रदत्तवान् ॥ ५३ ॥ सा मनुप्रभवं दिव्यं प्राप्ये-
च्चाकुकुलं नृपम्।विपुलेनास्मि कालेन पाणिवात् पार्थिवं गता ५४
एवं दत्तास्मि मनवे मानवेन्द्राय धीमते । भुक्ता राजसहस्रैश्च
महर्षिकुलसम्पतैः ॥ ५५ ॥ बहवः क्षत्रियाः शूरा मां जित्वा
दिवमाश्रिताः । ते च कालवशं प्राप्य मय्येव प्रलयं गताः ॥५६॥
मत्कृते विग्रहा लोके वृत्ता वर्तन्त एव च । क्षत्रियाणां बलवतां

महात्मा भार्गवने मेरे पतियोंके मार डाला है ॥ ५० ॥ इस
कारण अब मैं पराक्रम करने वाले शस्त्रवृत्ति क्षत्रियोंसे रहित
होनेसे विधवा होगई हूँ और नगर सूने पड़े हुए हैं, अतः मैं
(अपना जीवन) रखना नहीं चाहती ॥ ५१ ॥ अतः हे भग-
वन् ! आप मुझे अपनी समान कोई राजा भर्ता दीजिये, कि-
जो मुझ सागरमालिनीकी ग्राम और नगरसहित रक्षा करसके
तब उन प्रभुने मेरी बातको सुन कर बहुत अच्छा कहा, फिर
उन भगवान्ने मुझे मानवेन्द्र मनुके अर्पण कर दिया ॥ ५३ ॥
तब मैं मनुसे उत्पन्न हुए दिव्य इक्ष्वाकुकुलके राजाके पास
आगई और बहुत समयसे एक राजाके पाससे दूसरे राजाओंके
पास चली आरही हूँ ॥ ५४ ॥ इसप्रकार मैं बुद्धिमान् मानवेन्द्र
मनुको साँपी हुई हूँ और महर्षियोंके कुलोंमें माननीय सहस्रों
राजाओंने मुझे भोगा है ॥ ५५ ॥ बहुतसे शूरवीर क्षत्रिय मुझे
जीत कर स्वर्गमें चले गए हैं, वे सब कालके अधीन होकर मुझमें
ही लीन हो गए हैं ॥ ५६ ॥ संग्राममें पीछेके पैर न धरनेवाले
बलवान् क्षत्रियोंने मेरे लिये ही बहुतसे युद्ध किये थे और आज

संग्रामेष्वनिवर्तिनाम् ॥ ५७ ॥ एतद्युष्मत्पट्टत्तेन दैवेन परिपाल्यते ।
जगद्धितार्थं कुरुत राज्ञां हेतुं रणं क्षये ॥ ५८ ॥ यद्यस्ति मयि
कारुण्यं भारशैथिल्यकारणात् । एकरचक्रधरः श्रीमानभयं मे
प्रयच्छतु ॥ ५९ ॥ यमहं भारसन्तप्ता संप्राप्ता शरणार्थिनी ।
भारो यद्यवरोत्सव्यो विष्णुरेव ब्रवीतु माम् ॥ ६० ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे हरिवंशपर्वणि

द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥

वैशम्पायन उवाच । ते श्रुत्वा पृथिवीवाक्यं सर्वं एव दिवो-
कसः । तदर्थकृत्यं सचिन्त्य पितामहमयाव्रुवन् ॥ १ ॥ भगवन्
हियतामस्या धरणा भारसन्ततिः । शरीरकर्ता लोकानां त्वं हि
लोकस्य चेश्वरः ॥ २ ॥ यत्कर्तव्यं महेंद्रेण यमेन वरुणेन च ।

कल भी करतें हैं ॥ ५७ ॥ तुम्हारे प्रचलित क्रिये हुए दैवके
अनुसार इसप्रकार मजाका पालन होता रहता है, अब तुम
जगत्का हित करनेके लिये राजाओंके युद्धमें क्षीण करनेका
कोई उपाय करो ॥ ५८ ॥ भारसे शिथिल होती हुई मुझ पर
यदि करुणा आती तो एक चक्रधर श्रीमान् विष्णु ही मुझे
अभय दें ॥ ५९ ॥ मैं भारसे उकता कर जिनकी शरणमें आई
हूँ वह विष्णु यदि मेरा भार उतारना चाहें तो मुझसे (दया
करके) कहें ॥ ६० ॥ वाचनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५२ ॥

वैशम्पायनीने कहा, कि-वे सब देवता पृथिवीके वाक्यको
सुन कर पृथिवीके कार्यको सिद्ध करनेकी चिन्ता कर पिता-
महसे कहने लगे ॥ १ ॥ हे भगवन् ! आप इस पृथ्वीके भारको
उतारिये, आप संसारके शरीरोंका निर्माण करनेवाले हैं और
आप लोकोंके ईश्वर हैं ॥ २ ॥ इस विषयमें इन्द्र यम और वरुण
को क्या करना चाहिये और कुबेरको क्या करना चाहिये ? और
स्वयं नारायण ही इस विषयमें क्या-२ करें (इस बातकी आज्ञा

यद्वा कार्य धनेशेन स्वर्गं नारायणेन च ॥ ३ ॥ यद्वा चन्द्रमसा
 कार्यं भास्करेणानिलेन वा । आदित्यैर्वसुभिर्वापि रुद्रैर्वा लोका-
 भावनैः ॥ ४ ॥ अश्विभ्यां देववैद्याभ्यां साध्यैर्वा त्रिदशालयैः ।
 बृहस्पत्युशानोभ्यां वा कालेन कलिनापि वा ॥ ५ ॥ महेश्वरेण
 वा ब्रह्मन् विशाखेन गुहेन वा । यत्तराक्षसगन्धर्वोश्चारुण्यैर्वा
 महोरगैः ॥ ६ ॥ पतंगैः पर्वतेरचापि सागरैर्वा महोर्मिभिः । गंगा-
 म्रुखाभिर्दिव्याभिः सरिद्धिर्वा सुरेश्वर ॥ ७ ॥ क्षिप्रमाज्ञापय विभो
 कथमंशः प्रयुज्यताम् । यदि ते पार्थिवं कार्यं कार्यं पार्थिवविग्रहेऽ
 कथमंशावतरणं कुर्मः सर्वे पितामह । अन्तरिक्षगता ये च पृथिव्यां
 पार्थिवाश्च ये ॥ ८ ॥ सदस्यानां च विमाणां पार्थिवानां कुलेषु
 च । अयोनिजश्चैव तनूः सृजामो जगतीतले ॥ १० ॥ सुरा-

दीजिये) ॥ ३ ॥ चन्द्रगा सूर्य पवन आदित्य वसु और
 संसारके हितचिंतक रुद्रोंको भी इस विषयमें क्या करना चाहिये
 (इसकी आज्ञा दीजिये) ॥ ४ ॥ देवताओंके बीच अश्विनीकुमार
 स्वर्गवासी साध्य बृहस्पति शुक्राचार्य काल और कलि महेश्वर
 विशाख स्कन्द पत्त राक्षस गन्धर्व महासर्प पत्नी पर्वत बड़ी २
 लहरोंवाले समुद्र और हे सुरेश्वर ! गंगा आदि दिव्य नदियों
 को (इस विषयमें क्या २ काम करना चाहिये) ॥ ५—७ ॥
 हे विभो ! यदि आप पृथिवीके विकार वाले (मनुष्य आदिके)
 शरीरमें पृथिवीका कार्य करना उचित समझते हों तो बताइये !
 हम सब अपने २ अंशको किस २ प्रकार उत्पन्न करें ॥ ८ ॥
 हे पितामह ! हम सब किस प्रकार अंशावतार धारण करें, जो
 देवता अन्तरिक्षमें रहते हैं और जो पृथिवीमें पार्थिवरूपमें रहते
 हैं वे सदस्य विगोंके कुलमें और राजाओंके कुलोंमें उत्पन्न हों
 और पृथिवीमें अयोनिज शरीरोंमें भी उत्पन्न हों ? ॥ ९ ॥ १० ॥
 एक कार्यके लिये उद्योग करने वाले देवताओंके निश्चयको सुन

णामेहकार्याणां श्रुत्वा तन्निरश्चितं मतम् । देवैः परिवृतः प्राह
 वाक्यं लोकपितामहः ॥ ११ ॥ रोचते मे सुरश्रेष्ठा युष्माकमपि
 निश्चयः । सृजध्वं स्वशरीरांशांस्तेजसात्मसमान् भुवि ॥ १२ ॥ सर्व
 एव सुरश्रेष्ठास्तेजोभिरवरोहत । भावयन्तो भुवं देवी लब्ध्वा
 त्रिभुवनाश्रियम् ॥ १३ ॥ पार्थिवे भारते वंशे पूर्वमेव विजानाता ।
 पृथिव्यां संभ्रममिमं श्रूयतां यन्मया कृतम् ॥ १४ ॥ समुद्रेऽहं
 पुरा पूर्वे वेत्तामासाद्य पश्चिमाम् । आसे सार्धं तनूजेन कश्य-
 पेन महात्मना ॥ १५ ॥ कथाभिः पूर्ववृत्ताभिलोक्येदानुगाभिः ।
 इति वृत्तैश्च बहुभिः पुराणप्रभर्तृर्गुणैः ॥ १६ ॥ कुर्वतस्तु कथा-
 स्तास्ताः समुद्रः सह गंगया । समीपमाजगामाशु युक्तस्तोयद-
 मारुतैः ॥ १७ ॥ स वीचिविपमां कुर्वन् गतिं वेगतरंगिणीम् ।

कर देवताओंसे फिर कर बैठे हुए लोकपितामह ब्रह्माजीने
 कहा, कि-॥ ११ ॥ हे श्रेष्ठ देवताओं ! मुझे तुम्हारा निश्चय
 उत्तम मालूम पड़ता है आप अपने तेजकी समान अंशोंवाले
 अपने अंशोंको पृथिवीमें उत्पन्न करिये ॥ १२ ॥ हे सब सज्जन
 देवताओं ! तुम अपने अंशोंसे पृथिवीमें उत्पन्न होओ और (तहाँ
 पर) त्रिभुवनकी लक्ष्मीको पाकर पृथिवीका पालन करो ॥ १३ ॥
 मैंने पृथिवीके भयका पहिलेसे ही विचार करके पृथिवीमें स्थित
 भरतवंशके लिये जो २ बातें सोच रखली हैं उनको तुम सुनो १४
 पहिले मैं पूर्वादिशामें समुद्रके पश्चिम तट पर अपने पुत्र कश्यप
 के साथ कथाएँ कहनेका बैठ गया था ॥ १५ ॥ उस समय हम
 पूर्वकालमें हुई लोक और वेदका अनुगमन करने वाली गुण-
 मयी इतिहासकी कथाओंको कहने लगे ॥ १६ ॥ जब मैं कथा
 कथा कह रहा था उस समय समुद्र गंगाको साथमें ले मेघ और
 पवन उसके साथमें शीघ्रतासे आये थे ॥ १७ ॥ समुद्र अपनी
 तेज तरंगिणी गतिको विषय करता हुआ जलवर जीनोंसे

यादोगणविविधेण संच्छन्नस्तोयवाससा ॥ १८ ॥ शंखमुक्ता-
मलतनुः मवालद्रुमभूषणः । युक्तश्चन्द्रमसा पूर्ण उग्रगम्भीर-
निःस्वनः ॥ १९ ॥ स मां परिभवन्नेव स्वां वेलां समतिक्रमन् ।
क्रेदयामास चपलैर्लाघिणैर्युविस्रवैः ॥ २० ॥ तं च देशं व्यव-
सितः समुद्रोद्भिर्निर्मदितुम् । उक्तः संरब्धया वाचा शान्तोसीति
मया तदा ॥ २१ ॥ शान्तोसीत्युक्तमात्रस्तु तनुत्वं सागरो गतः ।
संहतोर्मितरंगौघः स्थितो राजश्रिया ज्वलन् ॥ २२ ॥ भूयश्चैव
मया शप्तः समुद्रः सह गंगया । सकारणां मतिं कृत्वा युष्माकं
हितकाम्यया ॥ २३ ॥ यस्पाचवं राजतुल्येन वपुषा समुपस्थितः
गच्छार्णव महीपालो राजैव त्वं भविष्यसि ॥२४॥तत्रापि सहजां

विचित्र दीखते हुए वस्त्रको पहर कर आरहा था उस समय
उसका जलचर जीवों वाला जलीय वस्त्र चित्र विचित्र रंगके
उड़ते हुए लहरियेकी समान दीख रहा था ॥ १८ ॥ उसका
शरीर शंख और मोतियोंसे निर्मल दीख रहा था और वह
सूँगोंके भूषण पहर रहा था और वह पूर्णिमाके चन्द्रमाके साथ
होनेसे उग्ररूप धारण कर गम्भीर गर्जना कर रहा था ॥१९॥
उस समय वह मेरा तिरस्कार करनेके लिये अपने किनारेको
लौघ अपने चपल नमकीन जलोंसे मुझे भिगोने लगा ॥ २० ॥
जब समुद्र उस देशको जलसे मथने लगा तब मैंने क्रोधमें भरे
स्वरमें उससे कहा, कि-तू तो बड़ा शान्त है(यहाँ, विकृद्बलक्षण
से उपहास किया है) ॥२१॥ मेरे शान्त होना कहते ही समुद्र
तनु (दुर्बल)होगया और लहर तथा प्रवाहसे संहत हो रामलक्ष्मी
से दमकने लगा ॥२२॥ फिर मैंने तुम्हारा हित करनेकी इच्छासे
भार उतारनेके कारणकी बुद्धि करके समुद्र और गंगाको फिर
शाप दिया, कि-॥ २३ ॥ हे समुद्र ! तू मेरे पास राजाके वेशमें
आया था, अतः हे समुद्र ! जा तू राजा ही होगा ॥ २४ ॥

लीलां धारयन् स्वेन तेजसा । भविष्यसि नृणां भर्ता भारतानां
कुलोद्बहः ॥२५॥ शान्तोऽसि मयोक्तस्त्वं यच्चामि तनुतां गतः ।
सुतनुर्पशसा लोके शन्तनुस्त्वं भविष्यसि र्दइयमप्यातापांगि गंगा
सर्वांगशोभना । रूपिणी च सरिच्छ्रेष्ठा तत्र त्वामुपयास्यति २७
एवमुक्तस्तु मां लुब्धः सोऽभिवीक्ष्यार्णवोऽब्रवीत् । मां प्रभो देव-
देवानां किमर्थं शप्तवानसि २८ ॥ अहं तव विधेयात्मा त्वत्कृत-
स्त्वत्परायणः । अशपोऽसदृशैर्वाक्यैरात्मजं मां किमात्मना २९
भगवंस्त्वत्प्रसादेन वेगात् पर्वणि वर्धितः । यद्यहं चलितो ब्रह्मन्
कोऽत्र दोषो ममात्मनः ॥ ३० ॥ त्रिप्ताभिः पवनैरद्भिः स्पृष्टो
यद्यसि पर्वणि । अत्र मे किं नु भगवन् विद्यते शापकारणम् ३१

तहाँ भी तू अपनी स्वाभाविकी लीलाको करेगा और तू अपने
तेजसे भरतवंशियोंके कुलको उठाने वाला मनुष्येश्वर होगा २५
मैंने तुझसे “शान्तोऽसि—तू बड़ा शान्त है ?” कहा है और तू
भी तनु होगया है, अतः तू पतले शरीर वाला होगा और लोक
में अपनी कीर्तिसे शन्तनु होगा ॥२६॥ और तहाँ यह नदियोंमें
श्रेष्ठ गङ्गा भी सर्वाङ्गसुन्दरी और स्थूलनितम्बों वाली रूपवती
रमणी बन कर तेरी सेवा करेगी ॥ २७॥ इसप्रकार कहने पर
समुद्र लुब्ध होगया और मेरी ओर देख कर कहने लगा, कि-
हे देवदेवोंके (रुद्र आदिके) प्रभु ! आप मुझे शाप क्यों देरहे
हैं ॥ २८ ॥ मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ, आपका रचा हुआ
और आपमें परायण रहता हूँ, फिर आपने मुझ पुत्र समानको
अनुचित बातें कह कर क्यों शाप देदिया ॥ २९ ॥ हे भगवन् !
आपके प्रसादसे मैं (पूणिमाके) पर्वमें वेगपूर्वक बढा था (अर्थात्
यह मर्यादा आपने ही वॉंभी है उस मर्यादाके कारण) यदि मैं
चलायमान होगया तो इसमें मेरा क्या दोष है ? ॥ ३० ॥ मैंने
आपको पर्वके समय गल फेंक कर छू डी तो लिया था, हे भग-

बद्धधृतैश्च महावातैः मृदुदैश्च बलाहकैः । पर्वणा चेन्दुयुक्तेन
 त्रिभिः क्षुब्धोऽस्मि कारणैः ॥ ३२ ॥ एवं यद्यपराद्वोऽहं कारणै-
 स्त्वत्प्रकल्पितैः । तन्तुमर्हसि मे ब्रह्मञ्छापोऽयं विनिवर्त्यताम् ३३
 एवं मयि निरालम्बे शापाच्छिथिलतां गते । कारुण्यं कुरु देवेश
 प्रमाणं यद्यवेद्यसे ॥ ३४ ॥ अस्यास्तु देवगंगाया गां गताया-
 स्त्वदाज्ञया । मम दोषाददोषायाः प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥ ३५ ॥
 तमहं श्लक्ष्णया वाचा महार्णवमथानुवम् । अकारणज्ञं देवानां
 त्रस्तं शापानलेन तम् ॥ ३६ ॥ शान्तिं व्रज न भेतव्यं प्रसन्नो-
 ऽस्मि महोदधे । शापेऽस्मिन् सरितां नाथ भविष्यं शृणु कार-
 णम् ॥ ३७ ॥ त्वं तात भारते वंशे स्वं देहं स्वेन तेजसा ।

वन् । इसमें शाप देनेकी क्या आवश्यकता थी ॥ ३१ ॥ इस समय
 तूफान आरहा था, मेव उठ रहे थे और आज पूर्णिमाका चन्द्रमा
 था, इन तीन कारणोंसे मैं क्षुब्ध होरहा था ॥ ३२ ॥ हे ब्रह्मन् !
 आपके ही रचे हुए इन कारणोंसे मुझसे अपराध बन गया तो
 भी हे ब्रह्मन् ! आप मुझ पर क्षमा करिये और, इस शापको
 दूर करिये ॥ ३३ ॥ मैं निरालम्ब हूँ और शापके कारण डीला
 पड़रहा हूँ, ऐसी दशामें यदि आप (शरणागतका त्याग करने
 से पाप लगता है ऐसे वेदके) प्रमाणको मानते हों तो मुझ पर
 करुणा करिये ॥ ३४ ॥ और यह देवगङ्गा जो आपकी आज्ञासे
 ही पृथ्वी पर चली गई थी इसको भी मेरे ही कारणसे शाप
 गिला है, अतः आप इस निर्दोषके ऊपर तो अवश्य ही कृपा
 करिये ॥ ३५ ॥ तब मैंने देवताओंके प्रयोजनको न जाननेवाले
 और शापाग्निसे त्रास पाते हुए समुद्रसे मधुर चाणीमें कहा ३६
 हे महोदधे ! तू शान्त हो, डर मत, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ हे नदियों
 के नाथ ! मैंने तुझे जो शाप दिया है इसमें कुछ भावी कारण
 है, उसको तू सुन ॥ ३७ ॥ हे नदीपति नाथ ! तू अपने इस

आधत्स्व सरितां नाथ त्यक्त्वेमां सागरीं तनुम् ॥ ३८ ॥ महे-
 दधे महीपालस्तत्र राजश्रिया वृतः । पालयंश्चतुरो वर्णान् रंस्यसे
 सलिलेश्वर ॥ ३९ ॥ इयं च ते सरिच्छ्रेष्ठा विभ्रती रूपमुत्तमम् ।
 तत्कालरमणीयांगी गङ्गा परिचरिष्यति ॥ ४० ॥ अनया सह
 जान्हव्या मोदमानो ममाङ्गया । इमं सलिलसंक्लेदं विस्मरिष्यसि
 सागर ॥ ४१ ॥ त्वरता चैव कर्तव्यं त्वयेदं मम शासनम् ।
 प्राजापत्येन विधिना गङ्गया सह सागर ॥ ४२ ॥ वसवः प्रच्युताः
 स्वर्गात् प्रविष्टाश्च रसातलम् । तेषामुत्पादनार्थाय त्वं मया विनि-
 योजितः ॥ ४३ ॥ अष्टौ ताञ्जान्हवी गर्भानपत्यार्थं दधात्वियम् ।
 विभावशोस्तुव्यगुणान् चुराणां पीतिवर्धनात् ॥ ४४ ॥ उत्पाद्य
 त्वं वसून् शीघ्रं कृत्वा कुरुकुलं महत् । प्रवेष्टासि तनुं त्यक्त्वा

समुद्र देहको त्याग कर, भरतवंशमें अपने तेजस्वी रूपको उत्पन्न
 करेगा ॥ ३८ ॥ हे जलोके स्वामी समुद्र ! तहाँ तू राजलक्ष्मी-
 सम्पन्न राजा होगा और चारों वर्णोंका पालन करता हुआ
 रमण करेगा ॥ ३९ ॥ उस समय यह नदियोंमें श्रेष्ठ गंगा उत्तम
 रूपको धारण कर और रमणीय अङ्गोवाली बन कर तेरी सेवा
 करेगी ॥ ४० ॥ हे समुद्र ! उस समय तू मेरी आज्ञासे इस
 जान्हवीके साथ रमण करते २ इस जलसे भिगोने (के कारण
 मिले हुए शापके दुःख) को भूल जायगा ॥ ४१ ॥ तू मेरी इस
 आज्ञाका फुर्तीके साथ पालन करेगा, और हे समुद्र ! तू विवाह-
 विधिसे गंगाके साथ विवाह करेगा ॥ ४२ ॥ वसु स्वर्गसे भ्रष्ट
 होकर रसातलमें पहुँच गए, उनको उत्पन्न करनेके लिये मैंने
 तुझे नियुक्त किया है ॥ ४३ ॥ यह जान्हवी देवताओंका प्रेम
 सम्पादन करनेके लिये अग्निकी समान गुणवाले अर्थात् अग्नि
 की समान मनुष्योंका प्रिय करनेवाले वसुओंको अपनी सन्तान
 बनानेके लिये गर्भमें धारण करेगी ॥ ४४ ॥ हे सागरातू शीघ्रतासे

पुनः सागर सागरीम् ॥ ४५ ॥ एवमेतन्मया पूर्वं हितार्थं वः
 सुरोत्तमाः भविष्यं पश्यता भारं पृथिव्यां पार्थिवात्मकम् ॥४६॥
 तदेव शन्तनोर्वंशः पृथिव्यां रोपितो मया । वसत्रो मे च गंगा-
 यामृत्पन्नास्त्रिदिवौकसः ॥ ४७ ॥ अद्यापि भुवि गांगेयस्तत्रैव
 वसुरष्टमः । सप्तमे वसत्रः माताः स एकः परिलम्बते ॥ ४८ ॥
 द्वितीयायां च सृष्ट्यायां द्वितीया शन्तनोस्तनुः । विचित्रवीर्यो
 धृतिमानासीद्राजा प्रतापवान् ॥४९॥ वैचित्र्यवीर्यो द्वावेव पार्थिवौ
 भुवि सांप्रतम् । धृतराष्ट्रश्च पांडुश्च विष्णुपाती पुरुषर्षभौ ॥५०॥
 तत्र पांडोः श्रिया जुष्टे द्वे भार्ये संभूयतुः । शुभे कुन्ती च माद्री
 च देवयोपीपमे तु ते ॥५१॥ धृतराष्ट्रस्य राज्ञस्तु भार्यका तुल्य-
 वसुओंको उत्पन्न कर कुरुकुलको घटानेके अनन्तर अपने(मनुष्य)
 देहको त्याग समुद्रके देहमें आजावेगा ॥४५॥ हे सज्जन देवताओं!
 इसमकार मैंने पहिले ही भविष्यको विचार कर पृथिवीके राजाओं
 के भारको उतारनेके लिये और तुम्हारा प्रिय करनेके लिये
 (यह करना विचार रक्खा था) ॥४६॥ इस प्रकार मैंने शन्तनु
 के वंशको पृथिवीमें प्रतिष्ठित कर रक्खा है और स्वर्गवासी
 वसुओंमें जो वसु गङ्गामें उत्पन्न हुए थे ॥ ४७ ॥ उनमें आठवों
 वसु गांगेय नामसे अब भी पृथिवीमें ही रह रहा है, सात वसु तो
 यहाँ लौट आये हैं, परन्तु एक अभी तहाँ ही पड़ा हुआ है ४८
 शन्तनुके (काली नाम वाली) दूसरी स्त्रीसे संगम करने पर
 विचित्रवीर्य नामक पुत्र होगा वह राजा प्रतापी और कान्ति-
 वान् होगा (चित्रागद पहिले ही मर जायगा अतः उसका
 ग्रहण नहीं किया है) ॥ ४९ ॥ इस समय पृथिवीमें विचित्रवीर्यके
 दो ही पुत्र मन्दिद्र होंगे, उन पुरुषश्रेष्ठोंका नाम राजा धृतराष्ट्र
 और राजा पाण्डु होंगे ॥ ५० ॥ इनमें पाण्डुके शोभासम्पन्न
 दो स्त्रियें होंगी उन शुभ-स्त्रियोंका नाम कुन्ती और माद्री है वे

चारिणी । गान्धारी भुवि विख्याता भर्तुर्नित्यं व्रते स्थिता ५२
 तत्र वंशा विभज्यन्तां विपत्ताः पत्न एव च । पुत्राणां हि तयो
 राज्ञोर्भविता विग्रहो महान् ॥ ५३ ॥ तेषां विमर्दे दायाद्ये वृषाणां
 भविता क्षयः । युगान्तपतिमं चैव भविष्यति महद्भयम् ॥ ५४ ॥
 सत्रज्ञेषु नरेन्द्रेषु शांतयस्त्विदरेतरम् । त्रिविक्रपुरराष्ट्रौघा क्षितिः
 शैथिल्यमेष्यति ॥ ५५ ॥ द्वापरस्य युगस्यान्ते मया दृष्टं पुरा-
 तनम् । क्षयं यास्यन्ति शस्त्रेण मानवैः संह पार्थिवाः ॥ ५६ ॥
 तत्रावशिष्टान् मनुजान् सुप्तान्निशि विचेतसः । ध्वज्यते शंकर-
 स्यांशः पावकेनास्त्रतेजसा ॥ ५७ ॥ अन्तकप्रतिमे तस्मिन्नष्टत्वे
 क्रूरकर्मणि । समाप्तमिदमाख्यास्ये तृतीयं द्वापरं युगम् ॥ ५८ ॥

देवाङ्गनाओंकी समान हैं ॥ ५१ ॥ राजा धृतराष्ट्रकी एक ही
 स्त्री होगी और वह उसके समान ही (अन्वी बन कर) विच-
 रण करेगी, वह सदा पतिव्रत पालने वाली स्त्री गान्धारी नामसे
 प्रसिद्ध होगी ॥ ५२ ॥ क्षत्रियोंके बहुतसे) वंश पत्न विपत्त
 रूपमें विभक्त होकर इन दोनों राजाओंके पत्नका आश्रय करेंगे
 और इन दोनों राजाओंके पुत्रोंमें बड़ा भारी युद्ध होगा ॥ ५३ ॥
 उन दोनों राजाओंके भाग पर राजाओंका नाश होजायगा और
 और मलयकालकासा बड़ा भारी भय आकर पड़ेगा ॥ ५४ ॥
 जब राजे परस्परमें सेनासहित दूसरे राजाओंका संहार करडालेंगे
 तब राज्य और नगरोंके शून्य होजानेसे पृथिवीका भार हलका
 होजायगा और वह निर्बल (सेनारहित) हो जायगी ॥ ५५ ॥
 मैंने यह प्राचीन बात देखी है, कि- द्वापर युगके अंतमें शस्त्रोंके
 द्वारा राजा और मनुष्योंका क्षय होजायगा ॥ ५६ ॥ तब बाकी
 बचे हुए मनुष्य जब रात्रिमें बेखबर सो रहे होंगे तब शंकरका
 अंश (अश्वत्थामा) अग्नि की समान तेजस्वी शस्त्रसे उनको
 भस्म कर डालेगा ॥ ५७ ॥ इस मलयकालकी समान क्रूर कर्मके

महेश्वरांशोऽपसृते ततो माहेश्वरं युगम् । तिष्यं प्रवर्तते पश्चाद्युगं
 दारुणदर्शनम् ॥ ५६ ॥ अधर्मप्रायपुरुषं स्वल्पधर्मप्रतिग्रहम् ।
 उत्सन्नसत्यसंयोगं वर्धितानृतसंचयम् ॥ ६० ॥ महेश्वरं कुमारं
 च द्वौ च देवीं समाश्रिताः । भविष्यन्ति नराः सर्वे लोके न
 स्थविरायुषः ॥ ६१ ॥ तदेष निर्णयः श्रेष्ठः पृथिव्यां पार्थिवान्तकः ।
 अंशावतरणं सर्वे सुराः कुर्वत मा चिरम् ॥ ६२ ॥ धर्मस्याशस्तु
 कुन्त्या वै माद्रीयां च विनियुज्यताम् विग्रहस्य कलिर्मूलं गांधारीं
 विनियुज्यताम् ॥ ६३ ॥ एतौ पत्नौ भविष्यन्ति राजानः काल-
 चोदिताः । जातरागाः पृथिव्यर्थे सर्वे संग्रामलालसाः ॥ ६४ ॥
 गच्छत्वियं वसुमती स्वां योनिं लोकधारणी । सृष्टोऽयं नैष्टिको
 राजामुपायो लोकविश्रुतः ॥ ६५ ॥ श्रुत्वा पितामहवचः
 होने पर तीसरा क्षापर युग समाप्त होजायगा ॥ ५८ ॥ महेश्वर
 के अंश (विष्णुके अंश) श्रीकृष्णके वैकुण्ठमें पहुँचने पर जिस
 में दारुण दृश्य-होंगे ऐसे रौद्र कलियुग आरंभ होगा ॥ ५६ ॥
 उस युगमें प्रायः अधर्मी मनुष्य होंगे और धर्मका बहुत कम
 आचरण करेंगे और सत्यका लोप करदालेंगे और अधर्मसे धन
 का सञ्चय करेंगे ॥ ६० ॥ इस युगमें मनुष्य शिव और स्कन्द
 इन दो देवताओंका आश्रय लेंगे और इस युगमें सब मनुष्य वृद्ध नहीं
 होंगे ॥ ६१ ॥ पृथिवीके राजाओंका अन्त करनेके लिये यह विचार
 बहुत अच्छा है, हे देवताओं! तुम सब अंशावतार धारण करो
 देर मत करो ॥ ६२ ॥ धर्मके अंशको कुन्ती और माद्रीमें नियुक्त
 करना चाहिये और लड़ाईकी जेड़ कलिको गांधारीमें उत्पन्न
 करना चाहिये ॥ ६३ ॥ कालकी भेरणासे सब राजे इन दोनों
 पत्नों (मेंसे एक न एक) पत्नका आश्रय लेंगे और पृथिवीके
 मोहवश ये सब युद्धकी इच्छा करने लगेंगे ॥ ६४ ॥ ये लोकोंको
 धारण करने वाली पृथिवी अब अपने स्थानको जाय, यह लोक

वैशम्पायन उवाच । कृतकार्ये गते काले जगत्यां च यथा-
नयम् । अंशावतरणे वृत्ते सुराणां भारते कुले ॥ १ ॥ भागेऽव-
तीर्णे धर्मस्य शक्रस्य पवनस्य च । अश्विनोर्देवभिपजोर्भागे नौ
भास्करस्य च ॥ २ ॥ पूर्वमेवावनिगते भागे देवपुरोधसः । वसू-
नामष्टमे भागे प्रागेव धरणीं गते ॥ ३ ॥ मृत्योर्भागे क्षितिगते
कलेर्भागे तथैव च । भागे शुक्रस्य सोमस्य वरुणस्य च गां गतेऽ
शंकरस्य गते भागे मित्रस्य धनदस्य च । गन्धर्वोरगयक्षाणां
भागांशेषु गतेषु च ॥ ५ ॥ भागेष्वेतेषु गगनादवतीर्णेषु मेदि-

वैशम्पायनजीने कहा, कि-जब काल और पृथ्वी अपना कार्य
बना कर चले गए, तब देवताओं ने भरतवंशियोंके कुलमें न्याया
नुसार अवतार लिया था ॥ १ ॥ धर्मके भागने (युधिष्ठिरके
रूपमें) अवतार लिया था, और इन्द्रके भागने (अर्जुनके रूप
में) अवतार लिया था और पवनका अंश (भीमसेन बन कर)
उत्पन्न हुआ था और देववैद्य अश्विनीकुमारोंके अंश (नकुल
और सहदेवरूपमें) उत्पन्न हुए थे और सूर्यका भाग (कर्ण बन
कर) उत्पन्न हुआ था ॥ २ ॥ और देवपुरोहित बृहस्पतिका
अंश तो पहिलेही (द्रोण बन कर) पृथ्वीमें उत्पन्न हो गया था
और वसुओंका अष्टम भाग भी पहिले ही (भीष्म बन कर)
उत्पन्न होगया था ॥ ३ ॥ मृत्यु (यम) के भागने पृथ्वीमें
(विदुररूपमें) जन्म लेलिया था और कलिका भाग (दुर्योधन
के रूपमें) पृथ्वीमें पहुँच गया था सोमका अंश (अभिमन्यु बन
कर) उत्पन्न होगया था और शुक्रका भाग (भूरिश्रवाके रूपमें)
उत्पन्न हुआ था और वरुणका भाग (पर्णाशाके पुत्र श्रतायुधके
रूपमें) उत्पन्न हुआ था ॥ ४ ॥ और शंकरका अंश (अश्व-
त्थामाके रूपसे) उत्पन्न हुआ था और मित्रका भाग (कणिक
बन कर) उत्पन्न हुआ था और धनदका भाग (धृतराष्ट्र बन

नीम् । तिष्ठन्तारायणस्यांशे नारदः समदृश्यत ॥ ६ ॥ ज्वलि
ताग्निमतीकाशो बालार्कसदृशोक्षणः । सव्यापटुत्वं विभुलं जटा
मण्डलमुद्गहन् । चन्द्रांशुशुक्ले वसने वसानो, रुक्मभूषितः ॥७॥
वोष्णां गृहीत्वा महती कक्षासक्ता सखीमिव ॥ ८ ॥ कृष्णाजि-
नोचरासंगो हेमयज्ञोपवीतवान् । दण्डी कमण्डलुधरः साक्षा-
च्छक्र इत्रापरः ॥९॥ भेत्ता जातिगुह्यानां विग्रहाणां ग्रहोपमः ।
गाता चतुर्णां वेदानामुद्गाता प्रथमर्त्विजाम् । महर्षिर्विग्रहरुचि-
र्विद्वान् गान्धर्वकोविदः ॥ १० ॥ वैरिकेलिकिलो विभो ब्राह्मः

कर) उत्पन्न हुआ था, गन्धर्व सर्प और यज्ञोंके भाग (देवक, उग्रसेन और दुःशासन आदिके रूपमें उत्पन्न हुए थे ॥ ५ ॥ जब सब देवताओंके अंशोंने इस प्रकार पृथ्वी पर अवतार धारण कर लिया, तब देवताओंके पक्षमें रहने वाले नारदजी नारायणके पास आये ॥ ६ ॥ उस समय वह प्रज्वलित अग्निकी समान (तपसे) दमक रहे थे और उनके नेत्र गोलमूर्यकी समान रक्त हो रहे थे और उन्होंने बाई ओरसे लपेट देकर जटा मंडल को बांध रक्खा था ॥७॥ और वे भरखेमें बैठी हुई सखीकी समान अपनी महती नाम वाली वीणाको धारण कर रहे थे (महती नारदस्य स्यात्-नारदजीका वीणाका नाम महती है) ८ तथा वे कृष्ण मृगकी मृगदाला लोरहे थे और उनके (स्कन्ध पर) सुवर्णका यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था और दण्ड तथा कमण्डलुको धारण कर रहे थे और साक्षात् दूसरे देवराजकी समान दीखते थे ॥ ९ ॥ वे जगत्की गुप्त बातोंको प्रकट कर देते थे और युद्ध (करा देते थे) और (उत्पाती होनेसे धूम-केतु अदि) ग्रहोंकी समान माने जाते थे, वह चारों वेदोंका गान कर सकते थे और मुख्य २ ऋत्विगोंमें उद्गाता बनते थे १० वह शत्रुओंको युद्ध करानेकी क्रीड़ा करते थे और वह ब्राह्मण

कलिरिनापरः । देवगन्धर्वलोकानामादिवक्ता महाशुनिः ॥१॥
 स नारदोऽथ ब्रह्मर्षिर्ब्रह्मलोकचरोऽय्ययः । स्थितो देवसभाम-
 संख्यो विष्णुमन्त्रवीनु ॥२॥ अंशावनरणं विष्णोर्यदिदं विदर-
 क्तम् । ज्ञार्थं पृथिवीद्राणां सर्वपेनदकारणम् ॥ २३ ॥ यदेत-
 पार्थिवं ज्ञत्रं स्थिनं त्वयि यदीश्वर । नृनारायणयुक्तोयं कार्यार्थं
 प्रतिभानि मे ॥१४॥ न युक्तं जानना देव त्वया तत्त्वार्थदर्शिनाः ।
 भूदेवतपृथिव्यर्थं प्रयोक्तुं कार्यमीदृशम् ॥१५॥ त्वं हि चक्षुष्मतां
 चक्षुः श्लाघ्यः प्रभवतां प्रभुः । श्रेष्ठो योगचनां योगी गतिर्गति-
 मनामपि ॥१६॥ देवभागान् गतान् दृष्ट्वा किं त्वं सर्वाश्रयो विभुः ॥

दूसरे ब्राह्म कलिकी समान (माने जाते) थे, और वह महा-
 शुनि देवता मनुष्य और गन्धर्वोंमें मुख्य वृक्ता थे ११ ऐसे ब्रह्म-
 लोकमें विचरण करने वाले अविनाशी नारदजीने देवताओंकी
 सभामें क्रोधमें भर कर श्रीकृष्णसे कहा कि-॥१२॥ हे विष्णो !
 देवताओंने राजाओंका ज्ञय करनेके लिये जो पृथिवीमें अवतार
 लिया है, वह सब अकारण है अर्थात् कारणरूप आपके अव-
 तार धारण न करनेके कारण व्यर्थ है ॥ १३ ॥ हे ईश्वर !
 क्योंकि-ये पार्थिव (पृथिवीपरका) ज्ञत्र आपमें स्थित रहता है
 अर्थात् आपके अधीन है अतः मेरा विचार है कि-नर और
 नारायणके सहयोगसे ही इस कार्यकी सिद्धि होसकती है ॥१४॥
 हे देव ! आप तो तत्त्वदर्शी हैं जानकार हैं, परन्तु आपको ब्राह्मण
 और पृथिवीके लिये ऐसा (नरनारायणहीन) काम नहीं
 करना चाहिये था ॥१५॥ क्योंकि आप चक्षुष्मानोंके नेत्र हैं और
 ईश्वरोंमें ऐश्वर्य्य है और आप योगियोंके लिये श्रेष्ठ योगी है
 और आप गति वाले पुरुषोंकी गतिरूप हैं (अर्थात् आप अन्त-
 र्यामीके विना यह सब निरर्थक है ॥१६॥ सब देवता तो आपने
 अंशमें पृथिवीमें उत्पन्न होसुके) हैं, यह देख कर भी आप पृथ्वीकी

वसुन्धरायाः साह्यार्थमंशं स्वं नाऽनुपुञ्जसे ॥१७॥ त्वया सनाथा
 देवांशास्त्वन्मयास्त्वत्परायणाः । जगत्यां संचरिष्यन्ति कार्यात्
 कार्यतरं गताः ॥ १८ ॥ तदहं त्वरवा विष्णो प्राप्तः सुरसभापि-
 माम् । तव संचोदनार्थं वै शृणु चाप्यत्र कारणम् ॥ १९ ॥ ये
 त्वया निहता दैत्याः संग्रामे तारकामये । तेषां शृणु गतिं विष्णो
 ये गताः पृथिवीतलम् ॥ २० ॥ पुरी पृथिव्यामुदिता मथुरा
 नामतः श्रुता । निविष्टा यमुनातीरे स्फीता जनपदायुता ॥२१॥
 मधुर्नाम महानासीदानवो युधि दुर्जयः । त्रासनः सर्वभूतानां
 बलेन महताऽन्वितः ॥ २२ ॥ तस्य तत्र महच्चासीन्महापादप-
 संकुलम् । घोरं मधुवनं नाम यत्रासौ न्यवसत् पुरा ॥ २३ ॥
 तस्य पुत्रो महानासीन्त्वणो नाम दानवः । त्रासनः सर्वभूतानां

सहायता करनेके लिये अपने अंशसे उत्पन्न कर्मों नहीं होते हैं १७
 आपमें परायण रहने वाले देवांश आपके जाने पर सनाथ हो
 जावेंगे और पृथ्वी पर एक कार्य करनेके पीछे (उत्तरोत्तर)
 दूसरे कार्योंको करते हुए पृथिवी पर विचरण कर सकेंगे १८
 मैं जो आपको उकसानेके लिये इस सुरसभामें त्वरसे आया हूँ,
 इसके कारणको भी तुम सुनो ॥ १९ ॥ हे विष्णो! आपने जिन
 राजाओंको तारकामय संग्राममें मार डाला था, उनमेंसे जो पृथिवी-
 तलमें चले गए हैं, उनकी गतिजो सुनिये ॥२०॥ पहिले पृथिवी
 में मथुरा नामसे प्रसिद्ध एक पुरी उदित हुई थी, वह यमुनाके
 तट पर बसी हुई है, वह बड़ी विस्तृत है और उसमें बहुतसे
 जनपद (ग्राम वा तहसील) हैं ॥२१॥ पहिले सब पाण्डियोंको
 त्रास देने वाला मधु नामक एक असुर था, उसको युद्धमें जीतना
 बड़ा कठिन था और उसमें अपार बल भर रहा था ॥ २२ ॥
 वह जहाँ रहता था, तहाँ उसका मधुवन नामक घोर वन था,
 उसमें बड़े २ वृक्ष लगेरहे थे २३ उसके परमबली और पराक्रमी

(५०२) * महाभारत-हरिवंशपर्व * [चतुःपञ्चाश

महाबलपराक्रमः ॥२४॥स तत्र दानवः क्रीडन् वर्षपूगाननेकशः।
स दैवतगर्णान्लोकानुद्वासयति दर्पितः ॥ २५ ॥ अयोध्यायाम-
योध्यायां रामे दाशरथी स्थिते । राज्यं शासति धर्मज्ञे राज्ञसानां
भयावहे ॥ २६ ॥ स दानवो बलश्लाघी घोरं वनमुपाश्रितः ।
प्रेषयामास राणाय दूतं परुषवादिनम् ॥२७॥ विषयासन्नभूतोस्मि
तव राम रिपुश्च ह । न च सामन्तपिच्छन्ति राजानो बलदर्पि-
तम् ॥२८॥ राज्ञा राज्यव्रतस्थेन प्रजानां हितकाम्यया । जेतव्या
रिपवः सर्वे स्फीतं विषयपिच्छता ॥ २९ ॥ अभिपेकार्द्रकेशेन
राज्ञा रंजनकाम्यया । जेतव्यानीन्द्रियाण्यादौ तज्जयो हि ध्रुवो
जयः ॥ ३० ॥ सम्यग्वर्तितुकामस्य विशेषेण महीपतेः । नया-

सव भूतोंको त्रास देनेवाला लवण नामक पुत्र हुआ था ॥२४॥
वह दानव तहाँ बहुत वर्षों तक क्रीड़ा करता रहा, फिर वह दर्प
में भर कर देवता तथा मनुष्योंको व्रत करने लगा ॥ २५ ॥ फिर
उस बलश्लाघी दानवने घोर वनमें रहते समय कठोर भाषण
करने वाले एक दूतको रामचन्द्रजीके पास भेजा था, उस समय
दशरथपुत्र रामचन्द्र जिसमें युद्ध करनेका साहम किसीको नहीं
होता था ऐसी अयोध्यामें रहते थे वह धर्मज्ञ राज्ञसोंको भयभीत
कर देते थे और (धर्मपूर्वक) प्रजाका पालन करते थे ॥ २६-२७
(दूतने कहा, कि-लवणने कहा है, कि-) मैं तेरे देशके पास
आगया हूँ और तेरा शत्रु हूँ, राजा लोग बलदर्पित सामन्तकी
इच्छा नहीं करते हैं (अर्थात् उनको बली सामन्त अच्छा नहीं
लगता) ॥ २८ ॥ व्रतमें स्थित रहने वाला राजा प्रजाका हित
चाहनेकी इच्छासे और विस्तृत राज्यको पाने इच्छासे सब शत्रुओं
को वशमें करे उनको जीत लेय २९ अभिपेकके जलसे भीगे हुए
केश वाला राजा प्रजाका रंजन करना चाहता हो तो पहिले
इन्द्रियोंको जीते क्योंकि इनको जीतने पर विजय अवश्य होती

नामुपदेशेन नास्ति लोकसमो गुरुः ॥३१॥ व्यसनेषु जघन्यस्य
धर्ममध्यस्य धीमतः। यलज्येषुस्य नृपतेर्नास्ति सामन्तजं भयम् ३२
सहजैर्वाध्यते सर्वः महद्द्वैरिन्द्रियारिभिः । अमित्राणां प्रियकरै
मोहैरधृतिरीश्वरः ॥३३॥ यस्त्वया स्त्रीकृते मोहात् सगणो रावणो
हतः । नैतदौपयिकं मन्ये महद् कर्म कुत्सितम् ॥ ३४ ॥ वनवास-
पट्टेन यस्त्वया व्रतशालिना । महत्तं राक्षसानीके नैव दृष्टः सतां
विधिः ॥ ३५ ॥ सतामक्रोधनो धर्मः शुभां नयति सद्गतिम् ।
यस्त्वया निहतो मोहाद् दूषिताश्चाश्रमौकसः ॥ ३६ ॥ स एष

है ॥३०॥ भलीपकार वर्ताव करना चाहने वाले और विशेषतः
राजाके लिये नीतिका उपदेश पानेके लिये लोककी समान और
कोई गुरु नहीं है (अर्थात् लौकिक हित अहित लोकसे मालूम पडना
है, तहाँ शास्त्रकी अपेक्षा नहीं है) ३१ जो मृगया आदि व्यसनोमें
जघन्य (निकृष्ट) रहता है अर्थात् व्यसनोमें अधिक नहीं फँसता
है और जो बुद्धिमान् धर्ममें मध्यम रहता है अर्थात् धर्मका मध्यम-
रीतिसे सेवन करता और जो राजा यलज्येषु होता है अर्थात्
यज्ञके कामको अधिकतासे करता है उसको सामन्तोका कुछ
भय नहीं होता है ३२ सब मनुष्य स्वाभाविक इन्द्रियरूपी शत्रुओंके
बढने पर बाधामें पडने लगते हैं और ईश्वर (राजा) शत्रु-
सम्बन्धी मोहमें पडकर प्रिय लगनेवाले (उपायोसे) वारा पाने
लगता है ॥ ३३ ॥ तूने स्त्रीके कारण मोहवश हो सेनासहित
रावणको मार डाला है, परन्तु मैं तेरे इस बड़े भारी कर्मको भी
युक्तियुक्त न समझ कर कुत्सित ही समझता हूँ ॥३४॥ (अब
कुत्सितता को कहता है) तू वनमें बस कर व्रत पाल रहा था,
तब भी तूने रावणको राक्षसोंकी सेनाके मध्यमें मार डाला
था, यह सज्जनोचित आचार नहीं है ३५ क्रोधरहित हो पालन किया
धर्म ही सत्पुरुषोंको सद्गति देता है, परन्तु तूने मोहवश हो रावण

रावणो धन्यो यस्त्वया व्रतचारिणा । स्त्रीनिमित्ते हतो युद्धे
ग्राम्यान् धर्मानवेक्षता ॥ ३७ ॥ यदि ते निहतः संख्ये दुर्बुद्धि-
रजितेन्द्रियः । युग्यस्त्राय मया सार्धं मृधे यद्यसि वीर्यवान् ३८
तस्य दूनस्य तच्छ्रुत्वा भाषितं तत्त्ववादिनः । धैर्यादिसंभ्रान्तवपुः
सस्मित रावणोऽधर्वात् ॥ ३९ ॥ अस्रदेव त्वया दूत भाषितं तस्य
गौरवात् । यन्मां क्षिपसि दोषेण वेदात्मानं च सुस्थिरम् । ४०
यद्यहं सत्पथे मूढो यदि वा रावणो हतः । यदि वा मे हता
भार्या का तत्र परिदेवना ॥ ४१ ॥ न वाङ्मात्रेण दुष्यन्ति साधवः
सत्पथे स्थिताः । जागर्ति च यथा देवः सदा सत्स्वितरेषु च ४२
कृतं दूतेन यत्कार्यं गच्छ त्वं दूत मा चिरम् । नात्परत्वाधिपु

को मारडाला इससे तूने आश्रमौकसीको अर्थात् वनवासियोंको
भी दूषित कर दिया है (अर्थात्) तेरे व्रतके उल्लंघन करनेको
देखकर और व्रती पुरुष भी व्रतका उल्लंघन करनेलगे अतः तू
दुराचारका प्रवर्तक है) ॥ ३७ ॥ तूने दुर्बुद्धि और अजितेन्द्रिय
रावणको तो मार लिया, परन्तु यदि तू वीर्यवान् है तो आ !
आज रणमें मेरे साथ जुझ ॥ ३८ ॥ उस तत्त्व वात कहने वाले
दूतके भाषणको सुन कर रामचन्द्रजीका शरीर धैर्यके कारण
असंभ्रात रहा और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा ॥ ३९ ॥ हे दूत !
जो अपने को सुस्थिर (शास्त्रानुसार वर्ताव करने वाला)
मानता है उस दैत्यके गौरववश तूने मुझ पर दोष लगा आक्षेप
कर असत्य भाषण किया है ॥ ४० ॥ मैं यदि सज्जनोचित मार्ग
में मूढ़ होगया था अर्थात् सन्मार्गसे भ्रष्ट होगया था, और मैंने
रावणको भी मार लिया था और मेरी भार्या भी यदि चुराई
गई थी परन्तु तू क्यों बड़बड़ा रहा है ॥ ४१ ॥ जैसे अत्मा सज्जन
और असज्जन कक्षियोंमें जागने (सात्त्विक में रहने) पर भी
दूषित नहीं होता है तैसे सन्मार्गमें चलने वाले पुरुष (किसीकी

नीचेपु. प्रहरन्तीह मद्विधाः ॥ ४३ ॥ अयं मगानुगो भ्राता शत्रुघ्नः
 शत्रुतापनः । तस्य दैत्यस्य दुर्बुद्धेर्मृधे प्रतिकरिष्यति ॥ ४४ ॥
 एवमुक्तः स दूतस्तु ययौ सौमित्रिणा सह । अनुज्ञातो नरेन्द्रेण
 राघवेण महात्मना ॥ ४५ ॥ स शीघ्रयानः संप्राप्तस्तदा मधु-
 व्रतं महत् । चक्रे निवेशं सौमित्रिर्वनाते युद्धलालसः ॥ ४६ ॥ ततो
 दूतस्य वचनात् स दैत्यः क्रोधमूर्च्छितः । पृष्ठतस्तद्वनं कृत्वा युद्धा-
 याभिमुखः स्थितः ॥ ४७ ॥ तद्युद्धमभवद् घोरं सौमित्रेर्दानवस्य
 च । उभयोरेव बलिनोः शूरयो रणमूर्धनि ॥ ४८ ॥ तौ शरैः
 साधुनिशितैरन्योन्यमभिजघ्नतुः । न च तौ युद्धेमुख्यं श्रमं
 वाप्युपजग्मतुः ॥ ४९ ॥ अथ सौमित्रणा वाणैः पीडितो दान-

वात अर्थात्) वाणीमे ही दूतित नहीं होजाते ॥ ४२ ॥ दूत का
 जो काम है उसको तूने पूरा कर लिया, इस लिये हे दूत ! तू अब
 चला जा । देर न कर मुझसरीखे पुरुष अपनी बड़ाई करने वाले
 नीच पुरुषों पर प्रहार नहीं करते हैं ॥ ४३ ॥ यह शत्रुतापी मेरा
 छोटा भाई शत्रुघ्न उस दुर्बुद्धि दैत्यको युद्धमें ठीक करदेगा ॥ ४४ ॥
 रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहने पर वह दूत सुमित्रापुत्र शत्रुघ्न
 के साथ चला, रघुवंशी महात्मा राजाकी आज्ञा पाने पर शत्रुघ्न
 फुर्तीसे चलने वाली सवारी पर शीघ्र ही मधुवन नामक बड़े पारी
 वनमें पहुँच गए और युद्ध करनेकी इच्छा वाले सुमित्रानन्दनने
 मधुवनके समीप पड़ाव डाल दिया ॥ ४५-४६ ॥ उधर दूतके
 वचनको सुन कर क्रोधसे मूर्च्छित हुआ वह दानव वनको पीछे
 छोड़ युद्ध करनेके लिये सामने आकर दट गया ॥ ४७ ॥ तत्र
 रणके मुहाने पर शूर वीर और बलवान् शत्रुघ्न और दानवमें
 घोर युद्ध चलने लगा ॥ ४८ ॥ उन्होंने एक तेज किये हुए वाण
 मार कर आपसमें एक दूसरेको मारा परन्तु उन दोनोंने युद्धसे
 सुख नहीं मोड़ा और उन्हे न कुछ श्रम मालूम पड़ा ॥ ४९ ॥

वोत्तमः । ततः स शूलरहितः पर्यहीयत दानवः ॥ ५० ॥ स
 गृहीत्वांकुशं चैव देवैर्दत्तवरं रणे । कर्पणं सर्वभूतानां लवणो
 विररास ह ॥ ५१ ॥ शिरोधरायां जग्राह सौकुशेन चकर्प च ।
 प्रवेशयितुमारब्धो लवणो राघवानुजम् ॥ ५२ ॥ स रुक्मत्सरु-
 मुद्यम्य शत्रुघ्नः खड्गमुत्तमम् । शिरश्चिच्छेद खड्गेन लवणस्य
 महामृधे ॥ ५३ ॥ स इत्वा दानवं संख्ये सौमित्रिभिर्वत्सलः ।
 तद्वनं तस्य दैत्यस्य विच्छेदास्त्रेण बुद्धिमान् ॥ ५४ ॥ द्वित्वा
 वनं तत्सौमित्रिनिवेशं सोऽभ्यरोचयत् । भवाय तस्य देशस्य पुर्याः
 परमधर्मवित् ॥ ५५ ॥ तस्मिन्मधुवनस्थाने मथुरा नाम सा पुरी ।
 शत्रुघ्नेन पुरा सृष्टा इत्वा तं दानवं रणे ॥ ५६ ॥ सा पुरी परमो-
 दारा साष्टपाकारतोरणा । स्फीता राष्ट्रसमाकीर्णा समृद्धत्रल-

तदनन्तर सुमित्रानन्दन शत्रुघ्नके वाणोंसे पीड़ा पाकर दानवका
 शूल गिर पड़ा और वह कमजोर पड़ने लगा ॥ ५० ॥ तब लवण
 नामक दानव देवताओंके वरदानसे मिले हुए सब भूतोंको
 खींचने वाले शूलको लेकर जोरसे रेंकने लगा ५१ और उसने
 शत्रुघ्नके गलेको पकड़ लिया और उनको अंकुशसे खेंचने लगा
 फिर वह राक्षस रागचन्द्रनीके छोटे भाई शत्रुघ्नके शूल घूँसना
 चाहने लगा ५२ तब शत्रुघ्नने सुवर्णकी मूठ वाली आघुधोंमें
 श्रेष्ठ तलवारको उठा कर लवणके शिरको काट लिया ॥ ५३ ॥
 दानवको युद्धमें मारनेके अनन्तर मित्रवत्सल सुमित्रानन्दन बुद्धि-
 मान् शत्रुघ्नने अस्त्रके द्वारा उसके वनको काट डाला ॥ ५४ ॥
 सुमित्रानन्दनने वनको काटनेके अनन्तर पुरीका वसना परम
 धर्म है यह जान कर तहाँ पर नगर वसानेकी इच्छाकी ॥ ५५ ॥
 इस प्रकार शत्रुघ्नने उस दानवको रणमें मारनेके अनन्तर मधुवन
 के स्थानमें मथुरापुरी बसाई है ॥ ५६ ॥ वह पुरी बहुत बड़ी
 है उसमें चौमंजले महल हैं वह अतिविस्तृत है उसके अधीन अनेक

ब्राह्मणा ॥ ५७ ॥ उद्यानवनसंपन्ना सुसीमा सुप्रतिष्ठिता । प्रांशु-
 माकारवसना परिखाकुलमेखला ॥ ५८ ॥ चलाट्टालककेयूरा
 प्रासादवरकुण्डला । सुसंघृतद्वारवती चत्वारोद्धारहासिनी ॥ ५९ ॥
 अरोगवीरपुरुषा इत्यश्वरथसंकुला । अर्धचन्द्रप्रतीकाशा यमुना-
 तीरशोभिता ॥ ६० ॥ पुण्यपणवती दुर्गा रत्नसंचयगर्विता ।
 क्षेत्राणि संपन्नन्त्यस्याः काले देवश्च वर्षति ॥ ६१ ॥ नरनारी-
 ममुदिता सा पुरी स्म प्रकाशते । निघिष्टविषयश्चैव शूरसेन-
 स्ततोऽभवत् ॥ ६२ ॥ तस्यां पुर्यां महानीर्यां राजा भोजकुलो-
 द्बहः । उग्रसेन इति ख्यातो महासेनपराक्रमः ॥ ६३ ॥ तस्य पुत्र-
 राष्ट्र है और उसमें बहुसंखी फौज और सवारियों रहती है ५७
 उसमें वाग वगीचे लगे हुए हैं उसकी सीमा बड़ी अच्छी है और
 वह प्रतिष्ठित पुरी है, वह ऊँचे २ महलोंके वस्त्र ओढ़ रही है
 और वह परिखारूपी मेखला पहन रही है ॥ ५८ ॥ वह चलते
 फिरते मकानोंके केयूर धारण कर रही है और वह उत्तम २
 भवनोंके कुण्डलोंको धारण कर रही है, उसके द्वार भली भाँति
 रक्षित हैं और वह अँगनरूपी उद्धारोंसे हँसती रहती है ॥ ५९ ॥
 उसमें नीरोग वीर पुरुष रहते हैं और वह हाथी घोड़े और रथों
 से भरी रहती है और वह यमुनाजीके तट पर अर्धचन्द्रमाकी
 समान (तिरछी) शोभा पारही है ॥ ६० ॥ उसमें पुण्यके साथ
 व्यवहार होता है, तथा उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन है और
 वह रत्नोंकी राशियोंके कारण गर्वमें भरी रहती है उसके खेत
 अनाजसे भरे रहते हैं और तहाँ मेघ भी समयानुसार वर्षा करते
 रहते हैं ॥ ६१ ॥ उसमें मनुष्य और क्षिण परम प्रसन्नतासे रहते
 हैं, इससे वह पुरी खिल रही है इस प्रकार मधुरापुरीके वस
 जाने पर शूरसेन हुआ था ॥ ६२ ॥ और उस पुरीमें भोजकुल
 को उठाने वाला स्वामी कार्तिकेयकी समान पराक्रमी . उग्रसेन

त्वमापन्नो योऽसौ विष्णो त्वया इतः । कालनेमिर्महादैत्यः
 संग्रामे तारकामये ॥ ६४ ॥ कंसो नाम विशालाक्षो भोजवंश-
 विवर्धनः । राजा पृथिव्यां विख्यातः सिंहविष्णुविक्रमः ॥ ६५ ॥
 राज्ञां भयंकरो घोरः शंकनीयो महीक्षिताम् । भयदः सर्वभूतानां
 सत्पथाद्ब्रह्मर्ता गतः ॥ ६६ ॥ दारुणाभिनिवेशेन दारुणेनांत-
 रात्मना । युक्तस्तेनैव दर्पेण प्रजानां रोगहर्षणः ॥ ६७ ॥ न
 राजधर्माभिरतो नात्मपक्षमुखावहः । नात्मराज्यप्रियकरश्चण्डः
 कलिलचिः सदा ॥ ६८ ॥ स कंसस्तत्र संभूतस्त्वया युद्धे परा-
 जितः । क्रुद्ध्यादो वाधते लोकानासुरेणांतरात्मना ॥ ६९ ॥ योऽप्यसौ
 हयविक्रांतो हयग्रीवश्च नामतः । केशी नाम हयो जातः स तस्यैव

नामक महापराक्रमी राजा (राज्य करने लगा) ॥ ६३ ॥ हे विष्णो !
 उस अग्रसेनके यहाँ ही तारकामय संग्राममें आपके द्वारा मारा
 हुआ कालनेमि राजस पुत्र बन कर उत्पन्न हुआ है ॥ ६४ ॥
 वह कंस नामसे प्रसिद्ध है, उसके नेत्र बड़े २ हैं वह सिंहके कदम
 रखनेकी समान स्पष्ट रीतिसे कदम २ चलता है और वह राजा
 की रीतिसे प्रसिद्ध है, ॥ ६५ ॥ वह राजाओंको भयभीत कर
 देता है, उससे राजे सदा शंकित रहते हैं वह सब प्राणियोंको
 भय देता है और सन्मार्गसे हट कर उसने ब्रह्मघ्नपनका आश्रय
 लेलिया है ॥ ६६ ॥ वह उसी दारुण प्रकृति और दारुण
 अन्तरात्माके कारण दर्पमें भर कर प्रजाके रोंगटे खड़े कर देता
 है ॥ ६७ ॥ वह राजधर्ममें रत नहीं रहता है और अपने पक्ष
 वालोंको भी सुख नहीं देता है और अपने राष्ट्रका भी रिय
 नहीं करता है और वह चण्ड कलाहसे सदा प्रेम रखता है ६८
 इसाकार आपने जिसको युद्धमें जीत लिया था, वह कंस तहाँ
 उत्पन्न होगया है और वह अपने आगुरस्वभावके कारण मनुष्यों
 को राजसोंकी समान पीड़ा देरहा है ॥ ६९ ॥ और जो घोड़ेकी

जघन्यजः ॥ ७० ॥ स दृष्टो द्वेषितपटुः केसरी निरवग्रहः वृन्दा-
वने वसत्यंको नृणां मांसानि भक्षयन् ॥ ७१ ॥ अरिष्टो वलि-
पुत्रश्च ककुत्ती वृपरूपधृक् । गवामरित्वमापन्नः कामरूपी महा-
सुरः ॥ ७२ ॥ रिष्टो नाम दितेः पुत्रो वरिष्टो दानवेपु यः । स
कुञ्जरस्त्वमापन्नो दैत्यः कंसस्य वाहनः ॥ ७३ ॥ लम्बो नामेति
विख्यातो योऽसौ दैत्येषु दर्शितः मलम्बो नाम दैत्योऽसौ वटं
भाण्डीरमाश्रितः ॥ ७४ ॥ खरं इत्युच्यते दैत्यो धेतुकः सोऽमु-
रोत्तमः । घोरं तालवनं दैत्यश्चरत्युत्सादयन् गजाः ॥ ७५ ॥
वराहश्च किशोरश्च दानवौ यौ महाबली । मल्लौ रंगमर्तौ तौ
तु जातौ चाणूरमुष्टिकौ ॥ ७६ ॥ यौ तौ मयश्च तारश्च दानवौ

समान कदम रखता था और हयग्रीव नामसे प्रसिद्ध था, वह
कंसके छोटे भाईकी समान केशी नामक घोड़ा बन कर
उत्पन्न होगया है ॥ ७० ॥ वह दिनदिनानेमें चतुर निर्मल दुष्ट
केशी वृन्दावनमें मनुष्योंका मांस खाता फिरता है ॥ ७१-॥
और वलिका पुत्र अरिष्ट ककुदवाले वृषभके रूपमें रहता है, वह
गौओंसे शत्रुता करता है और वह महाराजस्य अपनी इच्छानु-
सार रूप धारण करता रहता है ॥ ७२ ॥ और जो दितिका
रिष्ट नामक पुत्र था और दानवोंमें श्रेष्ठ था, वह दैत्य हाथी
बन कर उत्पन्न हुआ है और कंसकी सवारीमें रहता है ७३
और जो घमण्डी दैत्य लम्ब नामसे प्रसिद्ध था वह मलम्ब
नामक दैत्य बन कर भाण्डीर वटका आश्रय करके रहता है ७४
जो दैत्य खर कहलाता था, वह असुरश्रेष्ठ धेतुक नामसे उत्पन्न
होगया है और वह दैत्य माणियोंको नष्ट करता हुआ भयंकर
तालवनमें फिरता रहता है ॥ ७५ ॥ और जो वराह और
किशोर नाम वाले महाबली दानव थे वे चाणूर और मुष्टिक नामसे
उत्पन्न होगए हैं और अखाड़ेमें मल्लयुद्ध करने हैं ॥ ७६ ॥

दानवान्तक । प्राग्ज्योतिषो तौ भौमस्य नरकस्य पुरे रतौ ॥७७॥
 एते दैत्या विनिहतास्त्वया विष्णो निराकृताः।मानुषं वपुरास्थाय
 वाञ्छन्ते भुवि मानवान् ॥ ७८ ॥ त्वत्कथाद्वेषिणः सर्वे त्वद्भक्तान्
 घ्नन्ति मानुषान् । तत्र प्रसादात्तेषां न दानवानां क्षयो भवेत् ७९
 त्वत्तस्ते विभ्यति दिवि त्वत्तो विभ्यति सागरे । पृथिव्यां विभ्यति
 त्वत्तो नान्यतस्तु कदाचन ॥ ८० ॥ दुर्वृत्तस्य हतस्यापि त्वया
 नान्येन श्रीधर । दिवश्च्युतस्य दैत्यस्य गतिर्भवति मेदिनी ८१
 व्युत्थितस्य च मेदिन्यां हतस्य नृशरीरिणः । दुर्लभं स्वर्गगमनं
 त्वयि जाग्रति केशव ॥ ८२ ॥ तदागच्छ स्वयं विष्णो गच्छामः
 पृथिवीतलम् । दानवानां विनाशाय विमृशात्मानमात्मना ॥८३॥

और हे दानवाँके विनाशक ! जो मय और तार नाम वाले
 दानव थे वे भूमिके पुत्र नरकासुरके प्राग्ज्योतिष नाम वाले नगर
 में रमण कर रहे हैं ॥ ७७ ॥ हे विष्णो ! तुमसे तिरस्कृत और
 तुम्हारे मारे हुए ये दैत्य पृथ्वीमें मनुष्योंका शरीर धारण कर
 मनुष्योंको पीड़ा दे रहे हैं ॥ ७८ ॥ ये सब आपकी कथासे द्वेष
 करते हैं और आपके मनुष्य भक्तोंका नाश करते रहते हैं ॥७९॥
 वे राक्षस स्वर्गमें आपसे डरते हैं और समुद्रमें भी आपसे ही
 डरते हैं और पृथ्वीमें भी आपसे ही डर सकेंगे, और किसीसे
 कभी नहीं डरेंगे ॥ ८० ॥ आप सबकी अन्तरात्मारूप हैं अतः
 आपके मारे हुए दुर्वृत्त की गति आप ही होते हैं और हे श्रीधर !
 इसके अतिरिक्त अपने आप स्वर्गसे भ्रष्ट हुए दैत्यकी गति
 मेदिनी होती है ॥८१॥ और कोई तहाँ उस मनुष्यधारी दैत्यको
 मार डालता है, तो हे केशव ! आपके यमरूपसे सावधान रहने
 के कारण उसका स्वर्गमें पहुँचना असंभव होना है (अतः
 एव महाकाव्यिक आप कंस आदिको मारनेके लिये पृथिवीमें
 अवतार धारण करिये ॥ ८२ ॥ हे विष्णो ! अतः आप पृथिवी

मूर्तयो हि तवाव्यक्ता दृश्यादृश्याः सुरैश्चमैः । तासु सृष्टास्त्वया
 देवाः संभविष्यन्ति भूतले ॥ ८४ ॥ तवाचतरणे विष्णो कंसः
 स विनशिष्यति । सेत्स्यते तव कार्पाथीं यस्यार्थे भूमिरागता ८५
 त्वं भारते कार्यगुरुस्त्वं चतुस्त्वं परायणम् । तदागच्छ हृषीकेश
 जित्वा तान् जहि दानवान् ॥ ८६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो हरिवंशपर्वणि नारदवाक्यं
 नाम चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥

वैशम्पायन उवाच । नारदस्य वचः श्रुत्वा सस्मितं मधु-
 सूदनः । मत्सुवाच शुभं वाक्यं वरेण्यः मधुरीश्वरः ॥ १ ॥
 त्रैलोक्यस्य हितार्थाय यन्मां वदसि नारद । तस्य सम्यक्प्रवृत्तस्य

पर स्वयं ही आइये, अब हम जाते हैं, आप दानवोंका नाश
 करनेके लिये अपने अंशसे स्वयं उत्पन्न हूजिये ॥ ८३ ॥ आपकी
 मूर्तियें अव्यक्त हैं अर्थात् मनुष्य उनको स्पष्टरूपसे नहीं देख
 सकते और श्रेष्ठ २ देवता भी विष्णुरूपमें उनको देख सकते हैं,
 परन्तु वह दृश्य होने पर भी ब्रह्मभावमें अदृश्य रहती हैं, देवता
 आपकी रची हुई उन दृश्यमूर्तियोंमें ही उत्पन्न होंगे ॥ ८४ ॥
 हे विष्णो ! आपके अवतार लेने पर कंस नष्ट होजावेगा, और
 जिस कामके लिये पृथिवी आई थी, वह कार्य भी सिद्ध हो
 जावेगा ॥ ८५ ॥ आप भारतवर्षके बड़े भारी कार्यको सँभाल
 सकेंगे, आप नेत्ररूप हैं, आप परायण हैं, इस लिये हे हृषी-
 केश ! आप पृथिवीमें आइये और दानवोंका संहार करिये ८६
 चौअनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५४ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-भोग और मोक्षकी कामना करने
 वाले जिनका वरण करते हैं, वे ईश्वर मधु मधुसूदन नारदजी
 की बात सुन कर मुस्कुरा कर कहने लगे, कि- ॥ १ ॥ हे नारद !
 तुमने मुझसे त्रिलोकीका हित करनेके लिये जो बात कही उसमें

श्रूयतामुत्तरं वचः ॥ २ ॥ विदिता देहिनो जाता मयैते भुवि
दानवाः । यां च यस्तनुपादाय दैत्यः पुष्यति विग्रहम् ॥ ३ ॥
जानामि कंसं संभूतमुग्रसेनसुतं भुवि । केशिनं चापि जानामि
दैत्यं तुरगविग्रहम् ॥ ४ ॥ नामं कुवल्यापीडं मल्लो चाणूर-
मुष्टिकौ । अरिष्टं चापि जानामि दैत्यं वृषभरूपिणम् ॥ ५ ॥
विदितो मे खरश्चैव प्रलम्बश्च महासुरः । सा च मे विदिता
विप्र पूतना दुहिता वलेः ॥ ६ ॥ कालियं चापि जानामि यमुना-
हृद्गोचरम् । नैनतेयभपाद् यस्तु यमुनाहृद्गाविशत् ॥ ७ ॥
विदितो मे जरासन्धः स्वितो मूर्ध्नि महीजिताम् । प्राग्ज्योतिष-
पुरे चापि नरकं साधु तर्कमे ॥ ८ ॥ मानुषे पार्थिवे लोके

मैं भली प्रकार प्रवृत्त हो रहा हूँ, अब तुम उत्तर सुनो ॥ २ ॥
यह बात मुझे विदित है, कि दानवोंने पृथ्वीमें देह धारण कर
लिया है और (मैं यह भी जानता हूँ, कि-) कौन २ दैत्य
किस २ शरीरको धारण कर वैर बढ़ा रहा है ॥ ३ ॥
मैं पृथिवीमें उत्पन्न हुए उग्रसेनके पुत्र कंसको जानता हूँ और मैं
घोडेका शरीर धारण करने वाले केशी दैत्यको भी जानता
हूँ ॥ ४ ॥ मैं कुवल्यापीड हाथीको और चाणूर तथा मुष्टिक नाम
वाले मल्लोंको और मैं वृषभका रूप धारण करने वाले अरिष्ट
दैत्यको भी मैं जानता हूँ ॥ ५ ॥ मैं खर और महासुर प्रलम्ब
को भी जानता हूँ और हे विप्र ! मैं बलिकी पुत्री पूतनाको भी
जानता हूँ ६ और मैं यमुनाके सरोवरमें विचरण करने वाले
कालिय नागको भी जानता हूँ, वह गरुड़के भयसे यमुनाजीके
हृदमें घुस गया है ७ और मैं राजाओंके मस्तक पर विराजमान
जरासन्धको भी जानता हूँ और मैं प्राग्ज्योतिष पुरमें रहने वाले
नरकासुरको भी जानता हूँ ८ और मनुष्यलोकमें मनुष्य बन कर
उत्पन्न हुए स्वामि कार्निकेयकी समान तेज वाले शोणितपुरवासी

मानुषत्वमुपागतम् । वाणं च शोणितपुरे गृहमतिगतेजसम् ॥६॥
 इमं बाहुसहस्रेण देवैरपि सुदुर्जयम् । मय्यासक्तां च जानामि
 भारतीं महतीं धुरम् ॥१०॥ सर्वं तच्च विज्ञानामि यथा यास्यन्ति
 ते नृपाः । ज्ञयो भुवि मया दृष्टः शक्रलोके च सत्क्रिया । तेषां
 पुरुषदेहानामपरावृत्तदेहिनाम् ॥ ११ ॥संपवेक्ष्याम्यहं योगमात्म-
 नश्च परस्य च । संप्राप्य पार्थिवं लोकं मानुषत्वमुपागतः ॥१२॥
 कंसादींश्चापि तान् सर्वान् वधिष्यामि महासुरान् । तेन तेन विधा-
 नेन येन यः शान्तिमेव्यति ॥ १३ ॥ अनुपविरय योगेन तास्ता
 हि गतयो मया । अमीषां हि सुरेन्द्राणां इन्तव्या रिपवो युधि१४
 जगत्यर्थे कृतो योऽयमंशोत्सर्गो दिवौकसैः । सुरदेवपिंगन्धर्वै-
 रित्थानुमते मम ॥ १५ ॥ विनिश्चयो हि प्रागेव नारदाय कृतो

वाणासुरको भी में जानता हूँ ६ वह अपनी सहस्र भुजाओंके
 कारण घमण्डमें फूलारहता है देवता भी उसको बड़ी कठिनता
 से जीत सकते हैं और मैं यह भी जानता हूँ, कि-पृथ्वीका बड़ा
 भारी भार मेरे ही ऊपर है १० वह सब जिस प्रकार मरेंगे यह
 सब मैं जानता हूँ, मैंने उनका ज्ञय और उनके (मरने पर)
 उनका इन्द्रलोकमें जो सत्कार होगा (वह योगदृष्टिसे) देख लिया
 है वे पुरुष देहसे छूटने पर फिर देहमें नहीं आवेंगे ११ मैं
 मनुष्य लोकमें मनुष्य बन कर अपने आप उद्योग करूँगा तथा
 दूसरोंसे भी उद्योग करवाऊँगा १२ और मैं जिस २ उपायसे जो २
 पारा जासकेगा, उस २ उपायसे कंस आदि बड़े २ राक्षसोंका
 वध करूँगा ॥ १३ ॥ मैं योगसे इनकी (भन्तर्धान आदि)
 गतियोंमें प्रवेश कर इनकी गतियोंको नष्ट करूँगा और देवेन्द्रके
 शत्रु राक्षसोंको भी युद्धमें मारूँगा ॥ १४ ॥ पृथ्वीके लिये स्वर्ग
 में रहने वाले देवता देवर्षि और गंधर्वोंने जो अंशावातर लिया
 है यह मेरी ही अनुमतिसे लिया है ॥ १५ ॥ हे नारद ! यह

मया । निवासं ननु मे ब्रह्मन् विदधातु पितामहः ॥ १६ ॥ यत्र देशे यथा जातो येन वेपेण वा वसन् । तानहं सभरे हन्यां तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १७ ॥ ब्रह्मोवाच । नारायणं सिद्धार्थमुपायं नृणु मे विभो । भुवि यस्ते जनयिता जननी च भविष्यति १८ यत्र त्वं च महाबाहो जातः कुलकरो भुवि । यादवानां महद्वंशमखिलं धारयिष्यति ॥ १९ ॥ तांश्चासुरान् समुत्पाठ्य वंशं कृत्वाऽऽत्मनो महत् । स्थापयिष्यसि मर्यादां नृणां तन्मे निशामय ॥ २० ॥ पुरा हि कश्यपो विष्णो वरुणस्य महात्मनः । जहार यज्ञिया गा वै पयोदाः सुमहामखे ॥२१॥ अदितिः सुरभिश्चैने द्वेभार्ये कश्यपस्य तु । प्रदीयमाना गास्तास्तु नेच्छेतां

निश्चय मैंने पहिले ही कर रखवा था अब पितामह ब्रह्माजी मेरा निवासस्थान रचें ॥ १६ ॥ मैं किस देशमें किस प्रकार उत्पन्न होऊँ और किस वेपमें रह कर राक्षसोंका समरमें संहार करूँ, इस बातको हे पितामह ! आप ठीक करिये ॥ १७ ॥ ब्रह्माजी कहने लगे, कि-हे नारायण ! आप कामको सिद्ध करने वाले (मेरे विचारमें आये हुए) इस उपायसे सुनिये हे विभो ! पृथ्वी में आपके जो माता पिता होंगे ॥ १८ ॥ हे महाशुभ ! और तुम जिस देशमें उत्पन्न हो कर अपने वंशको चलाओगे और (जिस प्रकार) यादवोंके बड़े भारी सारे वंशको धारण करोगे ॥ १९ ॥ और उन असुरोंको निर्मूल कर आप (जिस प्रकार) अपने वंशको महत्त्वको देंगे और गनुष्योंमें मर्यादा व.धेंगे उसको मुझ से सुनिये ॥ २० ॥ हे विष्णो ! पहिले एक महापद्ममें कश्यपजी ने महात्मा वरुणकी यज्ञिय दुधेर गौओंको ले लिया था ॥२१॥ कश्यपजीकी अदिति और सुरभि नाम वाली दो स्त्रियों थीं, (कश्यपजी जब अपना काम कर उन गौयोंको लौटानेका विचार करने लगे) तब उन स्त्रियोंने वरुणको वह गौएँ लौटाना न

ब्रह्मणस्य वै ॥ २२ ॥ ततो मां ब्रह्मणोऽभ्येत्य प्रणम्य शिरसा
 ततः । उवाच भगवन् गात्रो गुरुणा मे हुता इति ॥ २३ ॥
 कृतकार्यो हि हि गास्तास्तु नाजुजानाति मे गुरुः ॥ अन्ववर्तत भार्ये
 द्वे अदितिं सुरभिं तथा ॥ २४ ॥ मम तत्र ह्यक्षया गात्रो दिव्याः
 कामदुहाः प्रभोचरन्ति सागरान् सर्वान् रक्षिताः स्वेन तेजसा २५
 कस्ता धर्षयितुं शक्तो मम गाः कश्यपादृते । अक्षयं याः क्षर-
 त्पश्यं पयो देवामृतोपमम् ॥ २६ ॥ प्रभुर्वा ऋत्विधतो ब्रह्मन्
 गुरुर्वा यदि वेतरः । त्वया नियम्याः सर्वे वै त्वं हि नः परमा
 गतिः ॥ २७ ॥ यदि प्रभवतां दण्डो लोके कार्यमजानताम् ।
 न विद्यते लोकगुरो न स्युर्न लोकसेतवः ॥ २८ ॥ यथा वास्तु तथा
 वास्तु कर्तव्ये भगवान् प्रभुः । मम गावः प्रदीयन्तां ततो गंतास्मि

चाहा ॥ २२ ॥ तब तो ब्रह्मण मेरे पास आया और मस्तक झुका
 मुझ परणाम कर कहने लगा, कि- हे भगवन् ! गुरुजीने मेरी गौएँ
 रख छोड़ी हैं २३ गुरुजी अपना कार्य कर चुकने पर भी गौएँ
 लौटाना नहीं चाहते हैं वे अपनी सुरभि और अदिति इन दोनों
 स्त्रियोंके वशमें हो (ऐसा कर) रहे हैं २४ हे प्रभो ! वे मेरी दिव्य
 गौएँ कामनाओंको सर्वदा पूर्ण करती रहती हैं और वह अपने
 ही तेजसे रक्षित होकर सब समुद्रों पर फिरती रहती हैं २५ मेरी
 गौएँ देवताओंके अमृतकी समानश्रेष्ठ दूधको अक्षय रीतिसे
 (सर्वदा) देती रहती हैं ऐसी मेरी गौओंको कश्यपजीके सिवाय
 और कौन दवा सकता है? २६ हे ब्रह्मन् ! समर्थ गुरु ही अथवा
 कोई और हो यदि वह अनुचित बर्ताव करे तो आपको सब ठीक
 करना चाहिये, आप ही हमारी गति हैं २७ हे लोकगुरो ! यदि
 समर्थ पुरुषोंको कार्यका विवेक न करने पर दण्ड न दिया जायगा
 तो लोकमर्यादा नष्ट होजावेगी २८ हे भगवन् ! अब आपका
 कर्तव्य चाहे जो हो परन्तु मेरी गौएँ मुझें दिलावा दीजिये ! तब

सागरम् ॥ २६ ॥ या आत्मदेवता गावो या गावः सत्वमव्य-
यम् । लोकानां त्वत्प्रवृत्तानामेकं गोब्राह्मणं स्पृतम् ॥ ३० ॥
त्रातव्याः प्रथमं गावस्त्रातास्त्रायन्ति ता द्विजान् । गोब्राह्मण-
परित्राणे परित्रातं जगद्भवेत् ॥ ३१ ॥ इत्यंबुपतिना प्रोक्तो वरुणे-
नाहमच्युत । गर्वा कारणतत्त्वज्ञः कश्यपे शापमुत्सृजम् ॥ ३२ ॥
येनांशेन हुता गावः कश्यपेन महर्षिणा । स तेनांशेन जगतीं
गत्वा गोपत्वमेव्यति ॥ ३३ ॥ या च सा सुरभिर्नाम अदितिश्च
सुरारणिः । तेषुभे तस्य भार्ये वै तेनैव सह यास्यतः ॥ ३४ ॥
ताभ्यां च सह गोपत्वे कश्यपो भुवि रंस्यते । स तस्य कश्य-
पस्यांशस्तेजसा कश्यपोपमः ॥ ३५ ॥ वसुदेव इति ख्यातो गोपु-

ही में समुद्रको, जाऊगा २६" गाँवें आत्मदेवताका हैं और गाँवें
अविनाशी तत्व हैं और आपमें प्रवृत्त रहने वाले (अर्थात् ब्रह्म-
तत्त्वज्ञोंने गौ और ब्राह्मणको एकसा कहा है ३० पहिले गौओंकी
रक्षा करनी चाहिये, वे रक्षा करने पर द्विगौंकी रक्षा करती हैं,
और ब्राह्मणोंकी रक्षा करने पर सब जगत् रक्षित हो सकता
है ॥ ३१ ॥ हे अच्युत ! जलके स्वामी वरुणके इस प्रकार कहने
पर, हे विष्णो ! गौओंके मूलतत्त्वका जानकार होनेसे मैंने
कश्यपको शाप दिया कि- ॥ ३२ ॥ (कश्यपके एक अंश नन्द
हैं और दूसरा अंश वसुदेव हैं यही दिखान्त हैं) महर्षि कश्यपने
जिस अंशसे गौओंका हरण किया है, वह उस अंशसे पृथ्वीमें
उत्पन्न होकर गोप (नन्द) बनेगे ॥ ३३ ॥ और जो उनकी
सुरभि और देवजननी अदिति नामकी स्त्रियें हैं, उन दोनों
स्त्रियोंको भी उनके साथ जाना पड़ेगा ॥ ३४ ॥ गोपभावमें
अर्थात् गौओंके स्वामीरूपमें कश्यप उनके साथ रमण करेंगे,
(अब) कश्यपका वह अंश (पृथिवीमें हैं और वह) तेजमें
कश्यपकी समान ही है ॥ ३५ ॥ और वह पृथिवीमें वसुदेव

तिष्ठति भूतले । गिरिगोवर्धनो नाम मथुरायास्त्वदूरतः ॥ ३६ ॥
 तत्रासौ गोषु निरतः कंसस्य करदायकः । तस्य भार्गद्वयं जात-
 मदितिः सुरभिश्च ते ॥ ३७ ॥ देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्य
 धीमतः । सुरभी रोहिणी देवी चादितिर्देवकी त्वभूत् ॥ ३८ ॥
 तत्र त्वं शिशुरेवादां गोपालकृतलक्षणः । वर्धयस्व महाबाहो पुरा
 त्रैविक्रमे यथा ॥ ३९ ॥ आदयित्वाऽऽत्मनात्मानं मायया योग-
 रूपया । तत्रावतर लोकानां भवाय मधुसूदन ॥ ४० ॥ जया-
 शीर्षचनैस्त्वैतेवर्धयन्ति दिवोकसः । आत्मानमात्मना हि त्वम-
 वतार्य महीतले ॥ ४१ ॥ देवकी रोहिणी चैव गर्भाभ्यां परि-
 तोषय । गोपकन्यासहस्राणि रमयंश्चर मेदिनीम् ॥ ४२ ॥ गाथ

प्रसिद्ध है और मथुराके समीप गोवर्धन नामक पर्वत पर गौओं
 में रहता है ॥ ३६ ॥ और गौओंमें क्रीडा करता हुआ कंसको
 कर देरहा है, और कश्यपकी अदिति और सुरभि नाम वाली
 दोनों स्त्रियों भी उत्पन्न होगई हैं (अदिति भी यशोदा और
 देवकी इन दो स्वरूपोंमें उत्पन्न हुई थी) ये बुद्धिमान् वसुदेवकी
 देवकी और रोहिणी नामकी दो पत्नियों हुई हैं, इनमें सुरभिका
 नाम रोहिणी हुआ और देवी अदिति देवकी हुई है ॥ ३८ ॥
 हे महाभुज ! तहाँ आप प्रारम्भमें गोपालका चिन्ह धारण कर
 त्रिविक्रमावतारकी समान शिशुपनमें बढिये ॥ ३९ ॥ हे मधु-
 सूदन ! आप अपनी योगमायासे अपनेको द्विपा कर संसारका
 कन्याण करनेके लिये उत्पन्न हूजिये ॥ ४० ॥ ये देवता जयर
 रूपी आशीर्वादात्मक वचन कह कर आपको बढावा दे रहे हैं,
 आप अपने आप अपनी आत्माको भूतलमें अवतीर्ण करिये ४१
 और देवकी तथा रोहिणीके गर्भमें रह कर उनके सन्तुष्ट करिये
 और सहस्रों गोपकन्याओंके साथ क्रीडा करते हुए पृथिवी पर
 विचरिये ॥ ४२ ॥ हे विष्णो ! आप जर गौओंकी रक्षा करते

ते रक्षतो विष्णो वनानि परिधावतः । वनमालापरिक्षिप्तं धन्या
 द्रक्ष्यन्ति ते वपुः ॥ ४३ ॥ विष्णो पद्मपलाशान्त गोपालवसति
 गते । बाले त्वयि महायाहो लोको बालत्वमेव्यति ॥ ४४ ॥
 त्वद्भक्ताः पुण्डरीकाक्ष तव चित्तवशानुगाः । वने चारयतो गाश्च
 गोष्ठेषु परिधावतः ॥ ४५ ॥ मञ्जतो यमुनायां च रतिं माप्स्यंति
 ते त्वयि । जीवितं वसुदेवस्य भविष्यति सुजीवितम् ॥ ४६ ॥
 यस्त्वया तात इत्युक्तः स पुन इति वक्ष्यति । अथवा कस्य पुत्रत्वं
 गच्छेथाः कश्यपादृते ॥४७॥ का च धारयितुं शक्ता त्वां विष्णो
 अदितिं विना । योगेनात्मसमुत्थेन गच्छ त्वं विजयाय वै । वय-
 मप्यालयान् स्वान् स्वान् गच्छामो मधुमूदन ॥४८॥ वैशम्पायन
 हुए वनमें दौड़ेंगे, उस समय जिसमें वनमालाएँ हिल र कर
 लग रही होंगी आपके ऐसे शरीरका जिनको दर्शन होगा,
 वे धन्य हैं ॥ ४३ ॥ हे विष्णो ! हे कमलपत्रकी समान
 नेत्र वाले ! हे महाभुज ! जब आप बालकपनमें गोपालोंकी
 वस्तीमें वसेंगे उस समय लोक भी बालक होजायगा अर्थात्
 आपके माहात्म्यको न जान सकेगा ॥ ४४ ॥ हे पुण्डरीकाक्ष !
 आपके चित्तके अनुकूल चलने वाले आपके भक्त जब आप
 वनमें गाँवें चरावेंगे और गोठोंमें दौड़े र फिरेंगे और यमुनामें
 गोते लगावेंगे तब परम प्रसन्न होंगे (वसुदेव)वह आपके तात !
 कहने पर आपको हे पुत्र ! कहेंगे, इससे उनका जीवन भी
 धन्य होजायगा, अथवा आप कश्यपके अतिरिक्त और किसके
 पुत्र बनना चाहते हैं ? ॥ ४५ ॥ ४७ ॥ हे विष्णो ! अदितिके
 अतिरिक्त ऐसी और कौन स्त्री है जो आपको धारण कर
 सके ? अब आप अपनेमेंसे प्रकट होने वाले योगको धारण कर
 विजय करनेके लिये प्रस्थान करिये, अब हे मधुमूदन ! हम
 भी अपने स्थानोंको जाते हैं ॥ ४८ ॥ वैशम्पायनजीने कहा,

उवाच । स देवानभ्यनुज्ञाय विविक्ते त्रिदिवालये । जगाम विष्णुः
स्वं देशं क्षीरोदस्योत्तरां दिशम् ॥ ४६ ॥ तत्र वै पार्वती नाम
गुहा मेरोः सुदुर्गमा । त्रिभिस्तस्यैव विक्रान्तैर्नित्यं पर्वसु
पूजिता ॥ ५० ॥ पुराणं तत्र विन्यस्य देहं हरिरुदारधीः । आत्मानं
योजयामास वसुदेवगृहे मभुः ॥ ५१ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितार्यां त्रैयासक्यां
खिलेषु हरिवंशो हरिवंशार्चणं पितामहवाक्यं
नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ॥ ५५ ॥

कि-तत्र विष्णु देवताओंको जानेकी आज्ञा देकर क्षीरसमुद्रकी
उत्तरदिशाकी ओर अपने स्थानको चले गए ॥ ४६ ॥ तहाँपर
मेरुपर्वतकी पार्वती नाम वाली एक बड़ी दुर्गम गुफा है, तहाँ
उनके तीन चरणचिन्ह हैं (इस कारण) उस गुफाकी पर्वोंमें
सर्वदा पूजा होती रहती है ५० उस गुफामें अपने प्राचीन शरीर
को त्याग (स्थापित) कर उदारबुद्धि मभु हरिने अपनी आत्मा
को वसुदेवजीके घरमें नियुक्त कर दिया ॥ ५१ ॥

इति श्रीमहाभारतके हरिवंशान्तर्गत हरिवंशार्चका मुरादाबाद-
निवासी भारद्वाजगोत्र गौडवंशश्च०कु०प०राम-
स्वरूपात्मज च०कु० प० रामचन्द्रशर्माद्वारा
गोविन्दमूरितनूज प० नीलकण्ठकृत-
संस्कृत टीकाके अनुकूल सम्पादित
हिन्दी भाषानुवाद समाप्त.



॥ श्रीहरिः ॥

✠ महाभारत ✠

हरिवंश-पर्व

विष्णु-पर्व २

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥३॥

वैशम्पायन उवाच । ज्ञात्वा विष्णुं क्षितिगतं भार्गाश्च त्रिदिवी-
कसाम् । विनाशशंसी कंसस्य नारदो मथुरां ययौ ॥१॥ त्रिविष्ट-
पादापतितो मथुरोपवने स्थितः । प्रेषयामास कंसस्य उग्रसेन-
सुतस्य वै ॥ २ ॥ स दूतः कथयामास मुनेरागमनं वने । स
नारदस्यागमनं श्रुत्वा त्वरितविक्रमः ॥ ३ ॥ निज्जगामासुरः
कंसः स्वपुर्याः पद्मलोचनः । स ददर्शातिथिं श्लाघ्यं देवपिं वीत-

श्रीः । नारायण नरोत्तम नर और सरस्वती देवीको प्रणाय
करके इतिहास आदि ग्रंथोंकी व्याख्याका आरंभ करे ॥ * ॥
वैशम्पायनजीने कहा, कि-विष्णु पृथ्वीमें आगए है और देवताओं
ने अपने अंशोंसे अवतार लेलिपा है, यह जान कर नारद जी
कंसको उसका नाश बतानेके लिये मथुरामें पहुँचे ॥ १ ॥ वह
स्वर्गसे उतर कर मथुराके एक बगीचेमें टिक गए, तहाँसे उन्होंने
उग्रसेनके पुत्र कंसके पास दूत भेजा ॥ २ ॥ उस दूतने मुनिके
बगीचेमें आनेकी बात कही, कमलकी समान नेत्रों वाला कंस
नारदजीके आगमनको सुन कर अपनी पुरीमेंसे फुर्तीसे कदम
रखता हुआ चला और उसने अपने निष्पाप प्रशंसनीय अतिथि

फलमपम् ॥४॥ तेजसा ज्वलनाकारं वपुषा सूर्यवर्चसम् । सोभि-
 वाद्यर्पये तस्मै पूजां चक्रे यथाविधि ॥५॥ आसनं चाग्निवर्णाभं
 विसृज्योपजहार सः । निपसादासने तस्मिन् स वै शक्रसखो
 मुनिः ॥ ६ ॥ उवाच चोग्रसेनस्य सुतं परमकोपनम् । पूजितोहं
 त्वया वीर विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ७ ॥ गते त्वेवं मम वचः श्रूयतां
 गृह्यतां त्वया । अनुसृत्य दिवो लोकानहं ब्रह्मपुरोगमान् ॥ ८ ॥
 गतः सूर्यसखं तात विपुलं मेहपर्वतम् । स नन्दनवनं चैव दृष्ट्वा
 चैत्ररथं वनम् ॥ ९ ॥ आप्लुत्य सर्वतीर्थेषु सरित्सु सह दैवतैः ।
 दिव्या त्रिधारा दृष्ट्वा मे गंगा त्रिपथगा नदी ॥ १० ॥ स्मरणा-
 देव सर्वेषामंहसां या त्रिभेदिनी । उपस्पृष्टं च तीर्थेषु दिव्येषु च
 यथाक्रमम् ॥ ११ ॥ दृष्टं मे ब्रह्मसदनं ब्रह्मपिंगणसेवितम् । देव-

(नारदजी) को देखा ॥ ३ ॥ ४ ॥ वह तेजके कारण अग्निके
 आकार वालेसे दीख रहे थे और उनका शरीर सूर्यकी समान
 दमक रहा था उस समय कंसने नारदजीको प्रणाम किया और
 शास्त्रानुसार उनकी पूजा करने लगा ॥ ५ ॥ उसने अग्निकी
 समान तेजस्वी आसन बनवा कर मुनिको (बैठनेके लिये) भेंट
 में दिया, तब इन्द्रके मित्र नारदजी उस आसन पर बैठ गए ६
 फिर उन्होंने उग्रसेनके परमक्रोधी पुत्र कंससे कहा, कि-हे वीर !
 तूने शास्त्रोक्तरीतिसे मेरा पूजन किया है ॥ ७ ॥ अब हे तातातू
 मेरे वचनको सुन और ग्रहण कर मैं स्वर्गके ब्रह्मलोक आदि
 लोकोंमें विचरण कर सूर्यके मित्र मेह नामक बड़े भारी पर्वत पर
 गया था, फिर मैंने नन्दन और चैत्ररथ नामक वनोंको देख
 कर ॥ ८ ॥ ९ ॥ देवताओंके साथमें सब नदियोंमें स्नान किया
 था फिर मैंने तीन मार्गोंसे चलने वाली तीन धार वाली दिव्य
 गंगाजीके दर्शन किये १० यह गंगाजी स्मरण करनेसे ही सबके
 पातकोंको दूर कर देती है फिर मैंने क्रमशः सब दिव्य तीर्थोंमें

गन्धर्वनिर्घोषैरप्सरोग्भिश्च नादितम् ॥ १२ ॥ सोहं कदाचिद्
 देवानां समाजे मेरुमूर्द्धनि । संगृह्य वीणां संसक्तामगच्छं ब्रह्मणः
 सभाम् ॥ १३ ॥ सोहं तत्र सिनोष्णीपान्नागारत्नविभूषितान् ।
 दिव्यासनगतान् देवानपश्यं सपितामहान् १४ तत्र गन्धयतामेव
 देवतानां मया श्रुतः । भवतः सानुगस्यैव वधोपायः सुदारुणः १५
 तत्रैषा देवकी या ते मथुरामां लघुस्वसा । योस्या गर्भोष्टमः कंसः
 स ते मृत्युर्भविष्यति ॥ १६ ॥ देवानां स तु सर्वस्वं त्रिदिवस्य
 गतिश्च सः । परं रहस्यं वेदानां स ते मृत्युर्भविष्यति ॥ १७ ॥
 परश्रैवापरस्तेषां स्वयंभूश्च दिवोकसाम् । ततस्ते तन्महद्भूतं दिव्यं
 च कथयाम्यहम् ॥ १८ ॥ श्लाघ्यश्च स हि ते मृत्युर्भूतपूर्वश्च तं

स्नान किया ११ तदनन्तर मैंने ब्रह्मर्षियोंकी टोलियोंसे सेवित
 ब्रह्माजीका भवन देखा वह देवता और गन्धर्वोंके घोषसे और
 अप्सराओंके घोषसे गुञ्जार रहा था १२ एक समय मैं अपनी
 वीणाको साथ लेकर मेरु पर्वत पर लगी हुई देवताओंके समाज
 वाली ब्रह्माजीकी सभामें जा पहुँचा १३ तहाँ मैंने पितामहको
 तथा देवताओंको स्वेत पगड़ी पहर कर अनेक प्रकारके आभूषणों
 से विभूषित हो दिव्य आसनों पर बैठे हुए देखा १४ तहाँ पर
 मैंने देवताओंको यह दारुण सलाह करते सुना, कि-ये आपके
 और आपके भाइयोंके मारनेका भयंकर विचार कर रहे हैं १५
 मथुरामें जो तुम्हारी ब्योठी बहिन देवकी रहती है हे कंस ! उस
 के जो आठवाँ गर्भ रहेगा, उससे तुम्हारी मृत्यु होजायगी १६
 वह देवताओंका सर्वस्व होगा और वह स्वर्गकी गति होगा और
 वह गर्भ वेदोंका परम रहस्य है, वह ही तेरी मृत्यु होगा अर्थात् तुम्हें
 मार डालेगा १७ वह देवताओंके स्वर्ग और मोक्ष देता है और
 वह देवताओंका ब्रह्मा (रचने वाला) है, इसी लिये मैं उसको
 महद्भूत (बड़ा भारी प्राणी) और दिव्य (प्राणी) कहना

स्मर । यत्नश्च क्रियतां कंस देवव्या गर्भकृन्तने ॥ १६ ॥ एषा
 मे त्वद्रता प्रीतिर्यदर्थं चाहमागतः । भ्रुज्वन्तां सर्वकामार्थाः स्वस्ति
 तेस्तु ब्रजाम्यहम् ॥ २० ॥ इत्युक्त्वा नारदे याते तस्य वाक्यं
 विचिन्तयन् । जहासोच्चैस्ततः कंसः प्रकाशदशनश्विरम् ॥ २१ ॥
 सस्मितं चैव प्रोवाच भृत्यानामग्रतः स्थिनः । हास्यः खलु स
 सर्वेषु नारदो न विशारदः ॥ २२ ॥ नाहं भीषयितुं शक्यो देवो-
 रपि सचासवैः । आसनस्थः शयानो वा प्रमत्तां मत्तं एव च २३
 योहं दोर्भ्यामुदाराभ्यां क्षोभयेयं धरामिमाम् । क्रोस्ति मां मानुषे
 लोके यः क्षोभयितुमुत्सहेत् ॥ २४ ॥ अथमभृति भूतानामेव देवानु-
 वर्तिनाम् । नृपक्षिपशुसंवातां करोमि कदनं महत् ॥ २५ ॥ आज्ञा-

हूँ १८ उससे तेरी मृत्यु होना प्रशंसा की बात है और पूर्वकाल
 में भी उससे ही तेरी मृत्यु हुई थी, उसका तू स्मरण कर ले परन्तु
 हे कंस! तू देवकीके गर्भ गिरानेका उपाय भी करता रह १६ में
 तुमसे प्रेम करता हूँ इसी लिये यह बात कहनेके लिये मैं यहाँ
 आया था, अब आप सब कामनाओंके भोगो आपका कल्याण
 हो अब मैं जाना चाहता हूँ २० नारदजीके इस प्रकार कह कर
 चले जाने पर कंस उनकी बातका विचार कर बहुत समय तक
 जेरासे हँसता रहा, उस समय उसके दाँत दीखते थे २१ फिर
 अपने मनुष्योंके सामने बैठे हुए कंसने मुस्करा कर कहा, कि-
 नारदजीकी बात पर सबको ही हँसी आती है वह चतुर नहीं
 हैं २२ मैं आसन पर बैठा होऊँ सोरहा होऊँ अथवा मत्त वा प्रमत्त
 दशामें होऊँ तबभी इन्द्रकी सहायता लेकर भी देवता मुझे डरा
 नहीं सकते २३ मैं तो अपनी बड़ी २ भुजाओंसे इस पृथ्वीको भी
 चुन्ध कर सकता हूँ, फिर संसारमें ऐसा कौन मनुष्य है जो मुझे
 चुन्ध करनेका साहस कर सकता हो ? २४ मैं आजसे देवताओं
 का पत्त लेने वाले प्राणियोंके मनुष्योंके पत्तियोंके और पशुओं

प्यता इयः केशी मलम्बो धेनुकस्तथा । अरिष्टो वृषभश्चैव पूतना
 कालियस्तथा ॥ २६ ॥ अटध्वं पृथिवीं सर्वा यथेष्टं कामरूपिणः ।
 प्रहरध्वं च सर्वेषु येऽस्माकं पत्तदूपकाः ॥ २७ ॥ 'गर्भस्थानामपि
 गतिर्विज्ञेया चैव देहिनाम् । नारदेन हि गर्भेभ्यो भयं नः समुदा-
 हृतम् ॥ २८ ॥ भवन्तो हि यथाकामं मोदन्तां विगतज्वराः । मां
 च वो नाथमाश्रित्य नास्ति देवकृतं भयम् ॥ २९ ॥ स तु केलि-
 किलां विप्रो भेदशीलश्च नारदः । सुश्लिष्टानपि लोकेऽस्मिन्
 भेदयँत्लभते रतिम् ॥ ३० ॥ कण्डूयमानः सततं लोकानटति
 चञ्चलः । घटमानो नरेन्द्राणां तन्त्रैर्वैराणि चैव हि ॥ ३१ ॥

को घोर पीड़ा दूँगा ॥ २५ ॥ इस समय केशी—अश्व
 मलम्ब धेनुरु अरिष्टवृषभ पूतना और कालियको आज्ञा देनी
 चाहिये कि—॥२६॥ तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सारी
 पृथ्वी पर विचरण करते रहे और जो हम राजसोंके पक्षको
 दूषित करते हों उन पर प्रहार करना आरम्भ करो ॥ २७ ॥
 और गर्भस्थ प्राणियोंका भी पता लगाते रहे, क्योंकि—नारद
 जीने गर्भोंसे ही हमें भय बताया है ॥ २८ ॥ तुम मुझे स्वामी
 समझ कर चिन्ता करना छोड़ इच्छानुसार आनन्द करो, देवता
 तुम्हारा कुछ विगाड़ नहीं कर सकते ॥२९॥ और इन ब्राह्मण
 नारदको तो युद्ध कराने में ही आनन्द आता है और इनका
 स्वभाव ही भेद डलवानेका है, यह स्नेही पुरुषोंमें भी भेद डाल
 कर बड़ा आनन्द पाते है ॥ ३० ॥ और यह चञ्चल पुरुष सदा
 इसकी चेष्टा करते रहते हैं, कि किस उपायसे राजाओंमें लड़ाई
 खिड़े (और उन उपायोंको करके यह राजाओंमें) संघर्ष करा
 देते हैं ॥ ३१ ॥ कंस (ऊपरी मनसे ही इस प्रकार एक भक्त

एवं स विलपन्नेव वाङ्मात्रेणैव केवलात् । विवेश कंसो भवनं
दह्यमानेन चेतसा ॥ ३२ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि नारद-
गमने कंसवाक्यं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

वैशम्पायन उवाच । सोऽज्ञापयत संरब्धः सचिवानात्मनो
हितान् । यत्ता भवत सर्वे वै देवक्या गर्भकृन्तने ॥ १ ॥ प्रथमा-
देव हन्तव्या गर्भास्ते सप्त एव हि । मूलादेव तु हन्तव्यः सोऽनर्थो
यत्र संशयः ॥ २ ॥ देवकी च गृहे गुप्ता प्रच्छन्नैरभिरक्षिता ।
स्वीरं चरतु विश्रब्धा गर्भकाले तु रक्षयताम् ॥ ३ ॥ मासान् वै
पुष्पमासादीन् गणयन्तु मम स्त्रियः । परिणामे तु गर्भस्य शोषं
ज्ञास्यामहे वयम् ॥ ४ ॥ वसुदेवस्तु संरक्ष्यः स्त्रीसनाथाषु भूमिषु ।
अत्रमत्तैर्मम हिते रात्रावहनि चैव हि । स्त्रीभिर्वर्षवरैश्चैव वक्तव्यं
कर रहा थो) तदनन्तर वह अपने मनमें जलता हुआ सा अपने
भवनमें घुसगया ॥ ३२ ॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए कंसने
अपना हित चाहने वाले मन्त्रियोंसे कहा, कि-तुम सब देवकीके
गर्भकी नष्ट करनेके लिये उद्यत रहो ॥ १ ॥ उन सब गर्भकीके
प्रथम(जन्म दिन)से ही नष्ट करना चाहिये और जिस (आठवें)
गर्भमें सन्देह है उसको तो (गर्भधारण होने पर ही अर्थात्)
मूलसे ही (औषधि आदिसे नष्ट) नष्ट करनेका उद्योग करना
चाहिये ॥ २ ॥ और देवकी घरमें ही रहे, तथा अन्तःपुररक्षक
उसकी देखभाल करते रहें और वह इन्द्रानुसार घूमती रहे,
परन्तु गर्भके समय उसकी (रक्षा करनी चाहिये अर्थात् विशेष)
देख भाल रखनी चाहिये ॥ ३ ॥ मेरी स्त्रियें पुष्पमास (रजो
मास) आदि महीनोंके गिनती रहें, फिर दशममासमें वचे हुए
गर्भको हम देख लेंगे ॥ ४ ॥ और मेरा हित चाहनेवाली स्त्रियें

नाम दानवाः ॥ ११ ॥ विक्रान्तवपुषो दीप्तास्तेऽमृतमाशनोपमाः ।
 अमरप्रतिमा युद्धे पुत्रा वै कालनेमिनः ॥ १२ ॥ ते ताततातं संत्यज्य
 हिरण्यकशिपुं पुरा । उपासांचक्रिरे दैत्याः पुरा लोकपिता-
 महम् ॥ १३ ॥ तप्यमानास्तपस्तीव्रं जटामण्डलधारिणः । तेषां
 प्रीतोऽभवद् ब्रह्मा पद्गर्भाणां वरं ददौ ॥ १४ ॥ ब्रह्मो-
 वाच । भो भो दानवशाद्दूलास्नपसाऽहं सुतोपितः । ब्रूत वो
 यस्य यः कामस्तस्य तस्य करोम्यहम् ॥ १५ ॥ ते तु सर्वे समा-
 नार्था दैत्या ब्रह्माणमव्ययम् । यदि नो भगवान् प्रीतो दीयतां
 नो वरो वरः ॥ १६ ॥ श्रवध्याः स्याम भगवन् दैवतैः समहो-
 रगैः । शापमहरणैश्चैव नियतैः परमर्षिभिः ॥ १७ ॥ यत्त-

हैं, कि—“नाश्वा हंसः सुविक्राथो दमनो रिपुमर्दनः । क्रोधहन्तेति
 विख्याताः पद्गर्भा नाम दानवाः ॥” पद्गर्भा नामक दानव
 नाश्वा हंस सुविक्राथ दमन रिपुमर्दन और क्रोधहन्ता नामसे
 प्रसिद्ध हैं) ॥ ११ ॥ उनके शरीरमें बड़ा बल था, वे दमक
 रहे थे और वे युद्धमें अमृत पीने वाले देवताओंकी समान
 अमर रहते थे और कालनेमिके पुत्र थे ॥ १२ ॥ उन्होंने पिता-
 मह हिरण्यकशिपुको छोड़ लोकपितामह ब्रह्माजीकी उपासना
 करना आरम्भ कर दी थी ॥ १३ ॥ वे जटामण्डलको धारण
 कर तीव्र तप करने लगे, तब ब्रह्माजी प्रसन्न होकर पद्गर्भोंको
 घर देना चाहने लगे ॥ १४ ॥ ब्रह्माजीने कहा कि—हे दानव-
 श्रेष्ठों ! मैं तुम्हारे तपसे सन्तुष्ट होगया हूँ अब तुम्हारी कौन २
 सी इच्छा है उसको बताओ, तो मैं पूर्ण करूँ ॥ १५ ॥ वे दैत्य
 समान प्रयोजनको रख कर ब्रह्माजीसे कहने लगे, कि—हे भगवन
 यदि आप हम पर प्रसन्न हुए हैं तो यह श्रेष्ठ वर दीजिये कि-१६
 देवता और सर्प भी हमें न मार सकें और नियममें रहने वाले
 ऋषि भी हम पर शापका प्रहार न कर सकें १७ और हे

निद्रया कालरूपिण्या सर्वानन्तर्हितान् स वै ॥२५॥ स्वप्नरूपेण
तेषां वै विष्णुर्देहानथाविशत् । प्राणेश्वरांश्च निष्कृष्य निद्रायै
प्रददौ तदा ॥ २६ ॥ तां चोवाच ततो निद्रां विष्णुः सत्यपरा-
क्रमः । गच्छ निद्रे मयोत्सृष्टा दैवकीभवनातिकम् ॥२७॥ इमान्
प्राणेश्वरान् गृह्य पद्गर्भान् दानवोत्तमान् । सर्वप्राणेश्वरांश्चैव
पद्गर्भान्नाम देहिनः । पद्गर्भान् देवकी गर्भे योजयन्व यथा-
क्रमम् ॥ २८ ॥ जातेष्वेतेषु गर्भेषु नीतेषु च यमक्षयम् । कंसस्य
विफले यत्ने देवक्याः सफले श्रमे ॥२९॥ प्रसादं ते करिष्यामि

ये २४ तहाँ उन्होंने कालरूपी निद्राके कारण अन्तर्हित होकर
जलरूपी गर्भमें शयन करते हुए पद्गर्भोंको देखा २५ तदनन्तर
विष्णु उनके शरीरोंमें प्रवेश करके उनके प्राणेश्वरोंको स्वप्नरूपसे
निकाल कर योगनिद्राको दे दिया (अर्थात् ब्रह्माजीके वरदानसे
उनका स्थूलदेह नष्ट नहीं हुआ था उनको विष्णुकी मायासे दूसरा
जन्म स्वप्नकी समान प्रतीत हुआ इसी प्रकार अपने देहसे बाहर
निकले हुए पुरुषोंको देशान्तरमें स्वप्नप्रपञ्च जाग्रतकी समान सत्य
ही भासता है इस कारण हमारी दृष्टिमें पद्गर्भोंका जन्म योग-
मायाविरचित होनेसे इन्द्रजालके बनाये हुए नगरकी समान
व्यावहारिक था परन्तु पद्गर्भोंकी दृष्टिमें स्वप्नकी समान
भासरहाया अतः ब्रह्माजीके वर दानमें कोई दोष नहीं
आया) २६ तदनन्तर सत्यपराक्रमी विष्णुने योगनिद्रासे कहा
कि-हे निद्रे ! तू मेरी आज्ञासे इन पद्गर्भ नामक दानवश्रेष्ठों
के प्राणेश्वरोंको लेकर देवकीके भवनके समीप जा और
इन सब प्राणोंके ईश्वर पद्गर्भ नाम प्राणियोंको ज्ञः गर्भ
बना कर क्रमशः देवकीके गर्भ में डाल ॥ २७ ॥ २८ ॥ इन
गर्भोंके उत्पन्न हो कर यमराजके घर पहुँचने पर जब कंसका
परिश्रम निष्फल होजायगा और देवकीका श्रम सार्थक होजायगा

मत्प्रभावसमं भुवि । येन सर्वस्य लोकस्य देवि देवी भविष्यसि ३०
 सप्तमो देवकीगर्भो योऽशः सौम्यो ममाग्रजः । स संक्रमयितव्यस्ते
 सप्तमे मास रोहिणीम् ॥ ३१ ॥ संकर्षणात् गर्भस्य स तु
 संकर्षणो युवा । भविष्यत्पुत्रो भ्राता मम शीतांशुदर्शनः ३२
 पतितो देवकी गर्भः सप्तमोऽप्यंशुपयादिति । अष्टमे गयि गर्भस्थे
 कंसो यत्नं करिष्यति ॥ ३३ ॥ या तु सानन्दगोपस्य दयिता
 भुवि विश्रुता । यशोदा नाम भद्रन्ते भार्या गोपकुलोद्भवा ॥ ३४ ॥
 तस्यास्त्व नवमो गर्भः कुलेऽस्माकं भविष्यसिानवम्यामेव संजाता
 कृष्णपत्नस्य च तिथौ ॥ ३५ ॥ अहं त्वभिजितो योगे
 निशाशा यौवने स्थिते न अर्धरात्रे करिष्यामि गर्भगोक्षं यथा-
 सुखम् ॥ ३६ ॥ अष्टमस्य तु मासस्य जातावावां ततः समम् ।

तब मैं तुझे ऐसा वसाद दूँगा, कि-पृथ्वीमें तेरा प्रभाव मेरे प्रभाव
 की समान होजायगा हे देवि ! तब तू सब लोकों की देवी हो
 जायगी ३० देवकीका जो सातवों गर्भ होगा वह सौम्य मेरा बड़ा
 भाई होगा उसको तू सातवे महीनेमें रोहिणीके गर्भमें पहुँचा
 देना ॥ ३१ ॥ गर्भके खँषनेके कारण वह युवा होकर संकर्षण
 कहलावेगा, वह मेरा बड़ा भाई चन्द्रमाकी समान प्रियदर्शन
 होगा ॥ ३२ ॥ देवकीका यह सातवों गर्भ भयके कारण गिर गया
 यह समझ कर कंस अष्टम गर्भमें मेरे पहुँचने पर यत्न करेगा ३३
 नन्दगोपकी जो प्रिय स्त्री पृथ्वीमें यशोदा नामसे प्रसिद्ध है वह
 गोप कुलको धारण करने वाली है तेरा कल्याण हो ३४ हमारे
 कुलमें तू उसका नवम गर्भ होगी और तू कृष्णपत्नीकी नवमी
 तिथिको ही उत्पन्न होगी (इससे सिद्ध होता है, कि-इस कन्या
 ने भी कुछ दिन देवकीके गर्भमें निवास किया था) ॥ ३५ ॥
 और मैं अर्धरात्रिके समय जब अभिजित् नक्षत्र युवावस्थामें होगा
 तब सुखपूर्वक गर्भसे युक्त होजाऊँगा ॥ ३६ ॥ हम दोनों आठवे

प्राप्त्यावो गर्भव्यत्यासं प्राप्ते कंसस्य नाशने ॥ ३७ ॥ अहं
 यशोदां यास्यामि त्वं देवि भज देवकीम् । आवयोर्गर्भसंयोगे
 कंसो गच्छतु मूढताम् ॥ ३८ ॥ ततस्त्वां गृह्य चरणे शिलायां
 पातयिष्यति । निरस्यमाना गगने स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ३६
 मच्छ्रवीसदृशी कृष्ण संकर्षणसमानना । विभ्रती विपुलौ बाहू
 मम बाहूपगौ दिवि ॥ ४० ॥ निशिखं शूलमुद्यम्य खड्गं च कन-
 क्तसरम् । पार्त्री च पूर्णा मधुना पंकजं च सुनिर्मलम् ॥ ४१ ॥
 नीलकौशेयसंवीता पीतेनोत्तरवाससा । शशिरश्मिप्रकाशेन
 हारेणोरसि राजता ॥ ४२ ॥ दिव्यकुण्डलपूर्णाभ्यां श्रवणाभ्यां
 विभूषिता । चन्द्रसापत्नभूतेन मुखेन त्वं विराजिता ॥ ४३ ॥

मासमें एक साथ उत्पन्न होवेंगे और कंसका नाश करनेके लिये
 हम दोनों गर्भों (अति बालकों) में लौट फेर होजावेगा ३७ में
 तो यशोदाके पास चलाजाऊँगा और तू देवकीकी सेवा करना हम
 दोनोंके बदल जाने परकंस मूढ़ बन जायगा ३८ तब वह तेरे चरण
 पररुड़ कर शिला पर पटकने लगेगा परन्तु तू छूटते ही उद्वल कर
 आकाशमें जाकर अपने शाश्वत स्थानको प्राप्त होजायगी ३६
 उस समय तेरी छवि मेरी छविकी समान होगी और तेरा मुख
 संकर्षणकी समान होजायगा और तू आकाशमें मेरी समान
 विपुल भुजाओंके धारण करलेगी ॥ ४० ॥ उस समय तेरे
 हाथमें त्रिशूल होगा, और सोनेकी मूँठकी तलवार होगी और
 मधुसे भरा पूर्ण पात्र होगा और सुनिर्मल कमल भी होगा ४१
 उस समय तू नीले रेशमी वस्त्रको पहन रही होगी और पीला
 दुपट्टा ओढ़ रही होगी और तेरा वक्षःस्थल चन्द्रमाकी किरणोंकी
 समान प्रकाश देने वाले हारसे खिल रहा होगा ॥ ४२ ॥ उस समय
 तेरे कान दिव्य कुण्डलोंसे विभूषित होरहे होंगे और तू अपने
 चन्द्रमाकी सीतली समान मुखसे खिल रही होगी ॥ ४३ ॥

मुकुटेन विचित्रेण केशवन्धेन शोभिना । भुजंगाभैर्भुजैर्भीमैर्भूष-
यन्ती दिशो दश ॥ ४४ ॥ ध्वजेन शिखिवर्हेण उचितेन विरा-
जिता । अङ्गनेन मयूराणामङ्गदेन च भास्वता ॥ ४५ ॥ कीर्णा
भूतगणैर्वैरैर्मन्त्रियोगानुवर्तिनी । कौमारं व्रतमास्थाय त्रिदिवं
वं भविष्यति ॥ ४६ ॥ तत्र त्वां शतदक् शक्रो मत्प्रदिष्टेन
कर्मणा । अभिषेकेण दिव्येन दैवतैस्सह योक्ष्यसे ॥ ४७ ॥ तत्रैव
त्वां भगिन्वधे ग्रहीष्यति स वासवः । कुशिकस्य तु गोत्रेण
कौशिकी त्वं भविष्यति ॥ ४८ ॥ स ते विध्ये नगश्रेष्ठे स्थानं
दास्यति शाश्वतम् । ततः स्थानसहस्रैस्त्वं पृथिवीं शोभयि-
ष्यसि ॥ ४९ ॥ त्रैलोक्यचारिणी सा त्वं भुवि सत्योपयाचना ।
चरिष्यसि महाभागे वरदा कामरूपिणी ॥ ५० ॥ तत्र शुम्भनि-

तुम अपने शोभायमान केशवन्ध मुकुटसे और अपनी सर्पकी
समान आभा वाली भयंकर भुजाओंसे दशो दिशाओंको सुशो-
भित करोगी ॥ ४४ ॥ और तुम मोरके परोंकी उचित ध्वजासे
विराजोगी और उस समय तुम प्रकाशवान् चाञ्चुन्द पहर रही
होगी ॥ ४५ ॥ फिर तुम मेरी आज्ञासे सहस्रों भूतोंसे घिर कर
कुमारव्रतको धारण करती हुई स्वर्गमें विचरण करोगी ॥ ४६ ॥
तब तहाँ पर सहस्रात्त इन्द्र और देवता मेरे उपदेश दिये हुए
कर्मसे दिव्य अभिषेकके द्वारा तेरा पूजन करेंगे ॥ ४७ ॥ तब
इन्द्र तुम्हे भगिनी बनानेके लिये ग्रहण करेगा और तू कुशिकके
गोत्रके कारण कौशिकी कहलाने लगेगी ॥ ४८ ॥ फिर तुम्हे
इन्द्र पर्वतश्रेष्ठ विंध्याचल पर शाश्वत स्थान देगा, तदनन्तर तू
पृथ्वीमें सहस्रों मठोंमें शोभा पावेगी ॥ ४९ ॥ तू त्रिलोकीमें
विचरण करेगी और पृथ्वीमें याचनाको सत्य किया करेगी,
हे महाभागो तू इच्छानुसार रूप धारण करके वर दिया करेगी ५०
तहाँ पर पर्वत पर फिरने पर शुम्भ और निशुम्भ नाम वाले

शुम्भो द्वौ दानवौ नगचारिणौ । तौ च कृत्वा मनसि मां सानुगौ
नाशयिष्यसि ॥५१॥ कृत्वाऽनुयात्राभूतैस्त्वं सुरामांसवलप्रिया ।
तिथौ नवम्यां पूजां त्वं प्राप्स्यसे सपशुक्रियाम् ॥ ५२ ॥ ये च
त्वां मत्प्रभावज्ञा प्रणमिष्यन्ति मानवाः । तेषां न दुर्लभं किञ्चित्
पुत्रतो धनतोऽपि वा ॥ ५३ ॥ कान्तारेष्ववसन्नानां मग्नानां च
महार्णवे । दस्युभिर्वा निरुद्धानां त्वं गतिः परमा नृणाम् ॥५४॥
त्वां तु स्तोष्यन्ति ये भक्त्या स्तवेनानेन वै शुभे । तस्याहं न
प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ५५ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि भारा-
वतरणे निद्रासंविज्ञानो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

वैशम्पायन उवाच । आर्यास्तव प्रवक्ष्यामि यथोक्तमृषिभिः
पुरा । नारायणीं नमस्यामि देवीं त्रिभुवनेश्वरीम् ॥१॥ त्वं हि

दो दानव होंगे उनको और उनके सब अनुचरोंको तू मनमें मेरा
स्मरण करेगी मार डालेगी ॥५१॥ तुझे सुरा मांम और बलि प्रिय
होगा और तेरा अनुगमन करने पर प्राणी पशुक्रिया (पशुबलि)
देकर नवमी तिथिमें तेरा पूजन किया करेंगे ॥५२॥ मेरे प्रभाव
को जानने वाले जो मनुष्य तुझे प्रणाम करेंगे उन्हें धन पुत्र
आदि कोई पदार्थ दुर्लभ न रहेगा ॥ ५३ ॥ वनमें कष्ट पाते हुए
और समुद्रमें डूबते हुए और डोंकुओंके रोके हुए प्राणियोंकी
तू परमगति है ॥ ५४ ॥ हे शुभे ! जो प्राणी इस स्तोत्रसे
तेरी स्तुति करेंगे, उनसे मैं दूर नहीं रहूँगा और न वे मुझसे
दूर रहेंगे ॥ ५५ ॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-पहिले ऋषियोंने जिस प्रकार कहा
है, उसी प्रकार मैं तुझसे आर्ग्यस्तवका वर्णन करता हूँ (पहिले)
मैं त्रिभुवनकी ईश्वरी नारायणी देवीको नमस्कार करता हूँ १
तू ही सिद्धि (मुक्ति) है और तू ही धृति (जीवन) है और

सिद्धिर्भूतिः कीर्तिः श्रीविद्या सन्नतिर्मतिः । संध्या रात्रिः प्रभा निद्रा
 निद्रा कालरात्रिस्तथैव च ॥ ३ ॥ आर्या कात्यायनी देवी कौशिकी
 ब्रह्मचारिणी । जननी सिद्धसेनस्य उग्रचारी महाबला ॥ ३ ॥
 जया च विजया चैव पुष्टिस्तुष्टिः क्षमा दया । ज्येष्ठा यमस्य
 भगिनी नीलकौशेयवासिनी ॥ ४ ॥ बहुरूपा विरूपा च अनेक-
 विधिचारणी । विरूपाक्षी विशालाक्षी भक्तानां परिरक्षिणी ५
 पर्वताग्रेषु घोरेषु नदीषु च गुहासु च । वासस्तव महादेवि वनेषु-
 पवनेषु च ॥ ६ ॥ शवरैर्वरैश्चैव पुलिन्दैश्च सुपूजितो । मयूर-
 पिच्छध्वजिनी लोकान् क्रमसि सर्वशः ॥ ७ ॥ कुक्कुटैरब्जागलै-
 र्मेघैः सिंहैर्गर्भिः समाकुला । घंटानिनादबहुला विंध्यवासि-
 न्यभिश्चुता ॥ ८ ॥ त्रिशुली पट्टिशधरा सूर्यचन्द्रपताकिनी । नवमी

तू ही कीर्ति श्री विद्या सन्नति मति संध्या रात्रि प्रभा निद्रा
 और कालरात्रिरूप है २ तू आर्या कात्यायनी देवी ब्रह्मचारिणी
 कौशिकी उग्रतासे विचरण करने वाली और सिद्धसेन (स्कन्द)
 की जननी है ३ तू जया विजया पुष्टि तुष्टि क्षमा और दयारूप
 है और तू यमराजकी बड़ी बहिन है और नीला रेशमी वस्त्र
 धारण करती रहती है ४ हे देवि ! आप बहुतसे रूप धारण
 करने वाली, विकृत रूप धारण करने वाली और अनेक प्रकार
 से भ्रमण करने वाली हैं और आप विरूप नेत्रों वाली विशाल
 नेत्रों वाली और भक्तोंकी रक्षा करने वाली हैं ५ हे महादेवि !
 पर्वतोंके भयंकर शिखरों पर नदियों (के तटों) पर गुहाओं पर
 और वन तथा उपवनोंमें तुम्हारे मठ हैं ६ शवर वर और पुलिन्द
 भी तुम्हारी पूजा अच्छी तरहसे करते हैं और तुम मोरछलकी
 ध्वजा बना कर सब लोकोंमें क्रमशः घूमती रहती हो ॥ ७ ॥
 आपके चारों ओर मुरगे वकरे मेढे सिंह और वघर रहते हैं
 और तुम्हारे पास बहुतसे घण्टोंका नाद होता रहता है

कृष्णपत्नस्य शुक्लस्यैकादशी तथा ॥ ९ ॥ भगिनी बलदेवस्य
रजनी कलहप्रिया ॥ आवासः सर्वभूतानां निष्ठा त्वं परमा गतिः १०
नन्दगोपसुता चैव देवानां विजयावहा । चीरवासास्तु वासाश्च
रौद्री संध्याचरी निशा ॥ ११ ॥ प्रकीर्णकेशी मृत्युश्च सुरामांस
वलिप्रिया । लक्ष्मीरलक्ष्मीरूपेण दानवानां वधाय च ॥ १२ ॥
सावित्री चपि देवानामार्या मन्त्रगणेषु च । कन्यानां ब्रह्मचर्यत्वं
सौभाग्यं प्रमदासु च ॥ १३ ॥ अन्तर्बेदी च यज्ञानामृत्विजा
चैव दक्षिणा । कर्षुकानां च सीतेति भूतानां धरिणीति च १४
सिद्धिस्त्वं यान्त्रिकाणां तु माता भूतगणस्य च । यक्षाणां प्रथमा

तुम विंध्यवासिनी नामसे प्रसिद्ध हो ॥ ८ ॥ और तुम
त्रिशूल और पटेको धारण किये रहती हो और चन्द्रमा
तथा सूर्य तुम्हारे झण्डे हैं कृष्णपत्नकी नवमी और शुक्लपत्नकी
एकादशी (तुम्हारी तिथियें हैं) ॥ ९ ॥ तुम बलदेवजीकी भगिनी
हो रात्रिरूपा हो और कलहप्रिया हो और तुम सर्वप्राणियोंकी
आश्रयरूप हो और निष्ठा परमगति मुक्तिरूप हो ॥ १० ॥ तुम
नन्दगोपकी पुत्री हो और देवताओंकी विजय कराने वाली हो
तुम फटे हुए वस्त्र भी पहिर लेती हो और (अच्छे) वस्त्र भी
पहिर लेती हो, तुम्हारे कर्म भयंकर हैं, तुम सायंकालके समय
विचरण किया करती हो और रात्रिरूपा हो ॥ ११ ॥ तुम्हारे
वाल बिखरे रहते हैं, तुम मृत्युरूप हो और सुरा मांस तथा
वलि तुमको प्रिय हैं और तुम दानवोंका वध करनेके लिये लक्ष्मी
होने पर भी अलक्ष्मीरूप बनजाती हो ॥ १२ ॥ तुम देवताओंमें
ब्रह्मचर्य हो और स्त्रियोंमें सौभाग्य रूप हो ॥ १३ ॥ तुम यज्ञोंमें
अन्तर्बेदी रूप हो और अृत्विजोंकी दक्षिणा हो और तुम
रिसानोंकी सीता (लांगलपद्धति) हो और प्राणियोंके लिये
पृथ्वी रूप हो ॥ १४ ॥ तुम यन्त्रसे काम करने वालोंके लिये

यन्ती नामातां सुरसेति च ॥ १५ ॥ ब्रह्मवादीत्यथो दीक्षा शोभा
 च परमा तथा । ज्योतिषां त्वं प्रभा देवी नक्षत्राणां च रोहिणी १६
 राजद्वारेषु तीर्थेषु नदीनां संगमेषु च । पूर्णा च पूर्णिमा चन्द्रे
 त्वं बुद्धिरम्बिका शुचिः ॥ १७ ॥ सरस्वती च वाग्मीके स्मृति-
 र्द्वेष्याने तथा । ऋषीणां धर्मबुद्धिस्तु देवानां मानसी तथा । सुरा
 देवी तु भूषेषु स्तूयसे तं स्वर्गमभिः ॥ १८ ॥ इन्द्ररूप चारुदृष्टि-
 स्त्वं सहस्रनयनेति च । तापसानां च देवी त्वमरणी चाग्निहोत्रि
 णाम् ॥ १९ ॥ क्षुधा च सर्वभूतानां वृत्तिस्त्वं दैवतेषु च । स्वाहा
 वृत्तिर्धृतिर्मेधा वसूनां त्वं वसुमती ॥ २० ॥ आशा त्वं मानुषाणां
 च पुष्टिश्च कृतकर्मणाम् । दिशश्च विदिशश्चैव तथा ह्यग्निशिखा

सिद्धरूपही, और प्राणियोंके लिये माताकी समान ही और तुम
 यन्तीको प्रथमा यन्ती (कुबेरकी माता रूप, हो और नागोंके लिये
 सुरसाख्य हो ॥ १५ ॥ तुम ब्रह्मवादिनी हो तथा दीक्षा और
 परमशोभारूप हो ज्योतिषोंमें प्रभारूप हो और नक्षत्रोंमें देवी
 रोहिणीरूप हो ॥ १६ ॥ और तुम कचहरी तीर्थ और नदियोंके
 संगमोंमें पूर्ण लक्ष्मीरूपमें विराजमान रहती हो और चन्द्रमामें
 पूर्णिमारूपसे रहती हो, तुम अत्रिकारूप हो और पवित्र बुद्धिरूप
 हो ॥ १७ ॥ तुम वाग्मीकि ऋषिमें सरस्वती रूपसे रहती हो
 और व्यासजीमें स्मृतिरूपसे रहती हो और ऋषियोंमें धर्मबुद्धि-
 रूपसे रहती हो और देवताओंमें मानसी (संकल्पसिद्धि) रूप
 से रहती हो १८ और इन्द्रकी सहस्र नयनोंमें रहने वाली मनोहर
 दृष्टि तुम ही हो और तुम तपस्वियोंमें कान्तिरूपसे रहती हो और
 अग्निहोत्रियोंकी अरण्यमें रहती हो ॥ १९ ॥ और तुम सप्त
 प्राणियोंमें क्षुधारूपसे रहती हो तथा वृत्तिरूपसे रहती हो और
 देवताओंमें स्वाहा वृत्ति बुद्धिरूपसे रहती हो और वसुओंमें
 वसुमतीरूपसे रहती हो २० तथा मानुष्योंमें तुम आशारूपसे रहती

प्रभा ॥२१॥ शकुनी पूतना त्वं च रेवती च सुदारुणा । निद्रापि
सर्वभूतानां मोहिनी क्षत्रिया तथा ॥ २२ ॥ विद्यानां ब्रह्मविद्या
त्वं त्वर्णोकारो वपट् तथा । नारीणां पार्वती च त्वां पौराणी-
मृषयो विदुः ॥२३॥ अरुन्धती च साध्वीनां प्रजापतिवचो यथा ।
यथार्थनाभिर्दिव्यैरिन्द्राणी चेति विथुता ॥ २४ ॥ त्वया व्याप्त-
मिदं सर्वं जगत् स्थावरजंगममासंग्रामेषु च सर्वेषु । अग्निप्रज्वलि-
तेषु च । नदीतीरेषु चौरेषु कान्तारेषु भयेषु च ॥ २५ ॥ प्रवासे
राजबन्धे च शत्रूणां च ममर्दने । प्राणायामेषु सर्वेषु त्वं हि रक्षा
न संशयः ॥ २६ ॥ त्वयि मे हृदयं देवि त्वयि चित्तं मनस्त्वयि ।
रक्ष गां सर्वपापेभ्यः प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥ २७ ॥ इमं यः सुस्त्वं

हो और कृतकृत्य पुरूषोंमें पुष्टिरूपसे रहती हो और तुम दिशा
विदिशा अग्निकी लपट और प्रभा (में भी रहती) हो ॥ २१ ॥
तुम शकुनी पूतना रेवती सुदारुणा और सब भूतोंकी मोहिनी
निद्रा और क्षत्रिया हो ॥ २२ ॥ तुम विद्याओंमें ब्रह्मविद्यारूप
हो तथा ओंकार और वपट्काररूप हों और अपि तुमको पुराणों
में प्रसिद्ध पार्वती नामक स्त्री कहते हैं ॥ २३ ॥ और तुमको
साध्वियोंमें अरुन्धतीकी समान बतलाते हैं, यह प्रजापतिकी
वचन है और तुम अपने यथार्थ दिव्य नामोंसे इन्द्राणी भी प्रसिद्ध
हो ॥ २४ ॥ हे देवि ! स्थावरजंगमात्मक सब जगत् तुमसे व्याप्त
है, सकल संग्रामोंमें अग्निकी लपटोंमें नदियोंके तटों पर चौराहों
पर बनोंमें भगके अवसरों पर प्रवात करने पर राजाके द्वारा
बंधनोंमें पड़ने पर और शत्रुओंके गर्दनके समय तथा सब प्रकार
के प्राणसंक्रांतिके समय भी तुम ही इगारी रक्षा करने चाली
हो ॥ २५ २६ ॥ हे देवि ! मेरा चित्त हृदय और मन तुम्हारी
और लग रहा है हे देवि ! तुम मुझे सब पापोंसे बचाओ और
तुम्हें मुझ पर कृपा करना उचित है ॥ २७ ॥ जो पुरुष प्रातःकाल

दिव्यगिति व्यासप्रकल्पितम् । यः पठेत् प्रातरुत्थाय शुचिः प्रयत-
मानसः ॥ २८ ॥ त्रिभिर्मासैः कान्तितं च फलं वै संग्रयच्छति ।
पद्भिर्मासैर्वरिष्ठन्तु वरमेकं गयच्छति ॥ २९ ॥ अर्चिता तु त्रिभि-
र्मासैर्दिव्यं चक्षुः प्रयच्छति । संवत्सरेण सिद्धिं तु यथाकामं
प्रयच्छति ॥ ३० ॥ सत्यं ब्रह्म च दिव्यं च द्वैपायनवचो यथा ।
नृणां बन्धं बधं घोरं पुत्रनाशं धनक्षयम् ॥ ३१ ॥ व्याधिमृत्युभयं
चैव पूजिता शमयिष्यसि । भविष्यसि महाभागो वरदा काम-
रूपिणी । मोहयिष्या च तं कसमेका त्वं भोक्ष्यसे जगत् ॥ ३२ ॥
अहमप्यात्मनो वृत्तिं विधास्ये गोषु गोपवत् । स्वदृढयर्थमहं चैव
करिष्ये कंसगोपताम् ॥ ३३ ॥ एवं तां स समादिश्य गर्तोत्थान-
पीश्वरः । सा चापि तं नमस्कृत्य तथास्त्विति च निश्चिता ३४

के समय उठ पवित्र हो मन लगा कर व्यासजीके रचे हुए इस
दिव्य स्तोत्रको पढ़ता है ॥ २८ ॥ तो देवी उसको तीन मासमें
वाञ्छित फल देती है और ऋः मास तक पाठ करते रहने पर एक
श्रेष्ठ वर देती है ॥ २९ ॥ और तीन मास तक पूजा करने पर
दिव्य नेत्र देती है और वर्ष भर तक पूजा करने पर मनोवाञ्छित
सिद्धि देती है ॥ ३० ॥ व्यासजीके बचनानुसार यह स्तोत्र
सत्य दिव्य और ब्रह्मस्वरूप है (श्रीकृष्णने कहा, कि- तू पूजा
करने पर मनुष्योंके कैद बध भयंकर पुत्रनाश धनक्षय व्याधि
और मृत्युके भयको भी शान्त कर देगी और हे महाभागो! तू वर-
दान देने वाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाली होगी तू
कंसको मोहमें डाल कर अकेली ही सब जगत्को भोगेगी ३१ ३२
और मैं भी गौर्ध्रोंमेंगोपकी समान वर्तन करूँगा और मैं अपनी
वृद्धिके लिये कंसकी गौर्ध्रोंका रक्षकत्व भी करूँगा ॥ ३३ ॥
इस प्रकार योगमायाको समझा कर भगवान् अन्तर्धान होगए
और योगमाया भी उनको प्रणाम कर तथा तथास्तु कहनेके

यश्चैतत् पठते स्तोत्रं शृणुयाद्वाप्यभीक्ष्णशः । सर्वार्थसिद्धिं लभते
नरो नास्त्यत्र सशयः ॥ ३५ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि स्वप्नगर्भ-
विधाने आर्यास्तुतिर्नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

वैशम्पायन उवाच । कृते गर्भविधाने तु देवकी देवतोपमा ।
जग्राह सप्त तान् गर्भान् यथावत् समुदाहृतान् ॥ १ ॥ पद्गर्भा-
न्निःसृतान् कंसस्ताञ्जघान शिलातले । आपन्नं सप्तमं गर्भं सा
निनायाथ रोहिणीम् ॥२॥ सार्धरात्रे स्थितं गर्भं पातयन्ती रज-
स्वला । निद्रया सहसाविष्टा पपात धरणीतले ॥ ३ ॥ सा स्वप्न-
गिव तं दृष्ट्वा स्वे गर्भे गर्भमादधत् । अपश्यन्ती च तं गर्भं मुहूर्त
व्यथिताऽभवत् ॥ ४ ॥ तामाह निद्रासंविग्नां नैशे तमसि रोहि-

अनन्तर निश्चित होगई ॥ ३४ ॥ जो मनुष्य इस स्तोत्रका सर्वदा
पाठ करता है वा सर्वदा इसको सुनता रहता है वह मनुष्य
निःसन्देह सर्वार्थसिद्धि पाता है ३५ तीसरा अध्याय समाप्त ३

वैशम्पायनजीने कहा, कि-गर्भकी बात चीत होजाने पर
देवताकी समान देवकीने उन पहिले कहे हुए सात गर्भोंको क्रमशः
धारण किया था ॥ १ ॥ छः गर्भोंके उत्पन्न होते ही उनको
कंसने शिला पर पार डाला था और सातवें गर्भके रहने पर
योगमाया उसको रोहिणीके पास लेगई ॥ २ ॥ आधी रात्रिमें
देवकीने गर्भको गिरा दिया था फिर रजस्वला होकर निद्राके
वशमे हो एक साय भूमि पर गिर पड़ी ॥ ३ ॥ देवकीने अपने
गर्भको गिरा देख कर अपने गर्भ (गोदी) में धारण कर लिया
(परन्तु योगमाया जब उस गर्भको लेगई तब) उस गर्भको न
देखनेसे देवकी ग्विन्न होगई ॥ ४ ॥ (तदनन्तर योगनिद्राने
उसको आरवासन दिया था यह दिखाते हैं)योगमायाने चन्द्रमा
को भिय लगने वाली रोहिणीकी समान, बुद्धिमान् वसुदेवके

णीम् । रोहिणीमिव सोमस्य वसुदेवस्य धीमतः ॥ ५ ॥ कर्पण-
 नास्य गर्भस्य स्वगर्भं चाहितस्य वी । संकर्पणो नाम सुतः शुभे
 तव भविष्यति ॥६॥ सा तं पुत्रमवाप्यैवं हृष्टा किञ्चिदवाङ्मुखी ।
 विवेश रोहिणी नेश्म सुपभा रोहिणी यथा ॥ ७ ॥ तस्य गर्भस्य
 मार्गेण गर्भमाधत्त देवकी । यदर्थं सप्त ते गर्भाः कंसेन विनि-
 पातिताः ॥८॥ तं तु गर्भं प्रयत्नेन ररक्षुस्तस्य मन्त्रिणः । सोऽप्यत्र
 गर्भवसती वसत्यात्मेच्छया हरिः ॥ ९ ॥ यशोदापि समाधत्त
 गर्भं तदहरेव तु । विष्णोः शरीरजां निर्द्रा विष्णुनिर्देशकारि-
 णीम् ॥ १० ॥ गर्भकाले त्वसम्पूर्णं अष्टमे मासि ते स्त्रियौ ।
 देवकी च यशोदा च सुपुत्राते समं तदा ॥ ११ ॥ यामेव रजनी

कुलको बढाने वाली देवकीसे कहा, कि-॥ ५ ॥ हे शुभे ! तूने
 जिसको अपने गर्भमें धारण कर रक्खा था उसके खेंचनेके
 कारण तेरा पुत्र संकर्पण नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ ६ ॥ इसप्रकार
 पुत्रको पानेसे वह मसन्न होगई और अपने मुखको कुछ नीचा
 कर कान्तिमती रोहिणीकी समान रोहिणीके घरमें घुस गई ७
 इधर (कंसके आदमी देवकीका सातवों गर्भ कहीं गया, क्व
 गिर पडा था इसकी) खोज कर रहे थे इतनेमें ही जिसके
 लिये कंसने सात गर्भोंको नष्ट कर डाला था उस आठवों गर्भको
 देवकीने धारण करलियातव तो उसके मन्त्री उस गर्भकी प्रयत्न-
 पूर्वाक रक्षा करने लगे और भगवान् भी अपनी इच्छासे गर्भमें
 रहनेलगे ८ उसी दिन यशोदाने भी विष्णुकी आज्ञा मानने वाली
 और विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुई योगनिद्राको धारण कर
 लिया १० तदनन्तर गर्भका समय पूर्ण होनेसे पहिले ही आठवें
 मासमें देवकीने और यशोदाने एक ही साथ सन्तान उत्पन्न
 की ११ वृष्णिकुलको उठाने वाले श्रीकृष्ण जिस रात्रिमें उत्पन्न

कृष्णो जज्ञे वृष्णिकुलोद्बुधः । तामेव रजनीं कन्यां यशोदापि
 व्यजायत ॥ १२ ॥ नन्दगोपस्य भार्यैका वसुदेवस्य चापरा ।
 तुल्यकालं च गर्भिणी यशोदा देवकी तथा ॥ १३ ॥ देवक्य-
 जनयद्विष्णुं यशोदा तां तु दारिकाम् । मुहूर्तैर्ऽभिजिति प्राप्ते सार्ध-
 रात्रे विभूषिते ॥ १४ ॥ सागराः समकम्पन्त चेलुश्च धरणी-
 धराः । जञ्जलुश्चाग्नयः शान्ता जायमाने जनार्दने ॥ १५ ॥
 शिवाश्च प्रवयुर्वाताः प्रशांतमभवद्भ्रजः । ज्योतीर्ऽप्यतिव्यकाशं
 जायमाने जनार्दने ॥ १६ ॥ अभिजिन्नाम नक्षत्रं जयन्ती नाम
 शर्वरी । मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दनः । अव्यक्त-
 शाश्वतः सूक्ष्मो हरिर्नारायणः प्रभुः । जायमानो हि भगवान्-

हुए थे उसी रात्रिमें यशोदाने भी कन्याको उत्पन्न किया था १२
 इनमें एक वसुदेवकी भार्या थी, और दूसरी नन्दगोपकी भार्या
 थी, यह यशोदा और देवकी एक ही समय गर्भिणी हुईं
 थीं ॥ १३ ॥ देवकीने अभिजिन् मुहूर्तमें विष्णुको उत्पन्न किया
 और यशोदाने विष्णुके प्रोषित करने (भेजने) पर रात्रिका
 चतुर्धाश रहने पर बालिकाको उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ उस
 समय श्रीकृष्णके उत्पन्न होने पर सागर (हर्षमें भरकर)
 हिलोरें लेने लगे और पर्वत भी (हर्षमें भर कर) झूमने लगे
 और शान्त पड़ी हुई अग्निमें भी (अपने आप) प्रज्वलित हो
 उठीं । १५ । सुखदायक स्पर्श बाला वायु चलने लगा और
 धूलि उड़ना बन्द होगया और श्रीकृष्णके उत्पन्न होने पर
 नक्षत्र और अधिक दिपने लगे १६ जिस समय श्रीकृष्ण उत्पन्न
 हुए थे उस समय अभिजित नामक नक्षत्र था और जयन्ती नाम
 वाली रात्रि थी और विजय नामक मुहूर्त था प्रभु अव्यक्त और
 शाश्वत हरि उत्पन्न होकर अपने नयनोंसे मोहमें डालने लगे
 उस समय स्वर्गमें देवदुन्दुभिमें विना बजाये, स्वयं ही बजने

यनैर्मोहयन् मधुः अनाहता दुन्दुभयो देवानां प्राणदन् दिवि १ =
 आकाशात् पुष्पवृष्टिं च वर्षर्षं त्रिदशेश्वरः । गीर्भिर्मंगलयुक्ताभिः
 स्तुवन्तो मधुसूदनम् ॥ १९ ॥ महर्षयः सगन्धर्वा उपतस्थुः सहा-
 प्सराः । जायमाने हृषीकेशे महष्टमभवज्जगत् ॥ २० ॥ इन्द्रश्च
 त्रिदशैः सार्धं तृष्टाय मधुसूदनम् । वसुदेवश्च तं रात्रौ जातं पुत्र-
 मधोक्तगम् ॥ २१ ॥ श्रीवत्सलक्षणं दृष्ट्वा युतं दिव्यैश्च लक्षणैः ।
 उवाच वसुदेवस्तु रूपं संहर वै मधो ॥ २२ ॥ भीतोऽहं देव कंसस्य
 तस्मादेवं ब्रवीम्यहम् । मग पुत्रा हतास्तेन तव ज्येष्ठाऽभ्युजेत्तण २३
 वीशम्पायन उवाच । वसुदेववचः श्रुत्वा रूपं चाहरदच्युतः ।
 अनुज्ञाप्य पितृत्वेन नन्दगोपगृहं नथ ॥ २४ ॥ वसुदेवस्तु संगृह्य
 दारकं क्षिप्रमेव च । यशोदाया गृहं रात्रौ द्विवेश सुतवत्सलः २५

लगीं १७ १ = स्वर्गमेंसे इन्द्रने पुष्पोंकी वर्षाणी तथा महर्षि
 गन्धर्व और अप्सरायें उपस्थित होकर मंगलमयी स्तुतियोंसे
 मधुसूदनकी स्तुति करने लगीं, इसप्रकार मधुसूदनके उत्पन्न
 होने पर सब जगत् हर्षमें भर गया १९ २० उस समय इन्द्रभी
 देवताओंके साथ मधुसूदनकी स्तुति करने लगा और रात्रिमें
 उत्पन्न हुए अधोक्तग पुत्रकी वसुदेव भी स्तुति करने लगे २१
 भगवान्को श्रीवत्स तथा और भी बहुतसे दिव्य लक्षणोंसे
 संयुक्त देखकर वसुदेवने कहा, कि-हे मधो ! आप अपने रूपको
 छिपा लीजिये २२ हे देव ! मैं कंससे डरा हुआ हूँ, इस लिये
 यह बात कह रहा हूँ हे कगलकी समान नेत्रों वाले ! उसने
 तुम्हारे बड़े भाई मेरे पुत्रोंको मार डाला है २३ वीशम्पायनजीने
 कहा, कि-वसुदेवजीके वचनको सुन अपने पितासे नन्दगोपके
 घर पहुँचानके लिये कह कर अच्युतने अपने चतुर्भुजीरूपको
 छिपा लिया २४ तब पुत्रवत्सल वसुदेव रात्रिमें ही शीघ्रताके
 साथ वालरूको लेकर यशोदाके घरमें घुस गए २५ और उन्होंने

यशोदायास्त्वविज्ञातस्तत्र निक्षिप्य दारकम् । प्रगृह्य दारिकां चैव
 देवकी शयनेऽन्यसत् ॥ २६ ॥ परिवर्ते कृते ताभ्यां गर्भाभ्यां
 भयविवलवः । वसुदेवः कृतार्थो वी निर्जगाम निवेशनात् ॥ २७ ॥
 उग्रसेनसुतायाथ कंसायानकदुन्दुभिः । निवेदयामास तदा तां
 कन्यां वरवर्णिनीम् ॥ २८ ॥ तच्छ्रुत्वा त्वरितः कंसो रक्षिभिः
 सह वेगिभिः । आजगाम गृहद्वारं वसुदेवस्य वीर्यवान् ॥ २९ ॥
 स तत्र त्वरितं द्वारि किंजातमिति चात्रवीत्प्रादीयतां शीघ्रमित्येवं
 वाग्भिः समभितर्जयत् ॥ ३० ॥ ततो हांहाकृताः सर्वा देवकी-
 भवने स्त्रियः । उवाच देवकी दीना वाष्पगद्गदया गिरा ॥ ३१ ॥
 दारिका तु प्रजातेति कंसं समभियाचती । श्रीमन्तो मे हताः
 सप्त पुत्रगर्भास्त्वया विभो ॥ ३२ ॥ दारिकेयं हतैवैषा पश्यस्व
 यदि मन्यसे । दृष्ट्वा कंसस्तु तां कन्यामाकृष्य तमुदायतः ॥ ३३ ॥

यशोदाको मालूम न हो इस प्रकार उस बालकको तहाँ सुला
 दिया और लड़कीको लाकर देवकीकी खाट पर लिटा दिया २६
 उन दोनों बालकोंको बदलनेके उपरान्त भयसे घबड़ागये वसु-
 देवजी सूतिकागृहसे निकल आये २७ तदनन्तर वसुदेवजीने
 उग्रसेनके पुत्र कंससे निवेदन किया-कि-हे महाराज ! वरवर्णिनी
 कन्या उत्पन्न हुई है २८ यह बात सुन कर कंस और उसके अनु-
 चर शीघ्रतासे दौड़े और वीर्यवान् कंस वसुदेवजीके घरके द्वार पर
 पहुँच गया २९ वह द्वार पर पहुँच कर कहने लगा, कि-क्या
 उत्पन्न हुआ है ? उसको मुझे दे दो, यह कह कर गालियों बरूने
 लगा ३० तब तो देवकीके भवनकी सब स्त्रियें हाहा कार कर
 उठीं और देवकीने रुँधे हुए कण्ठसे दीन होकर कहा, कि- ३१
 यह पुत्री उत्पन्न हुई मैं इसकी भीख माँगती हूँ, हे विभो ! तूने मेरे
 सात श्रीमान् पुत्रोंको तो मार ही डाला है ३२ और यह पुत्री भी
 मरी हुई ही है, यदि तू समझे तो इसको देख (कर छोड़ दे) ३३

इतैवैषा पदा कन्या जातेत्युक्त्वा वृथा गतिः । सा गर्भशयने
 विलष्टा गर्भाद्युक्त्वा न्नमूर्धजा ॥ ३४ ॥ कंसस्य पुरतो न्यस्ता
 पृथिव्यां पृथिवीसमा । स चैनां गृह्य परुषः समाविध्यावधूय च ३५
 उद्यच्छन्नेव सहस्रा शिलार्यां समभोधयत् । सावधूता शिलापृष्टे-
 ऽनिष्पिष्टा दिवमुत्पतत् ॥ ३६ ॥ हित्वा गर्भतनुं सा तु सहस्रा
 मुक्तमूर्धजा । जगाम कंसमादिरय दिव्यस्रगनुलेपना ॥ ३७ ॥
 हारशोभितसर्वांगी मुकुटोज्ज्वलभूषिता । कन्यैव साऽभवन्नित्यं
 दिव्या देवैरभिषुब्धता ॥ ३८ ॥ नीलापीताम्बरधरा गजकुम्भोपम-
 स्तनी । रथनिस्तीर्णप्रघना चन्द्रवक्रा चतुर्भुजा ॥ ३९ ॥ विद्यु-

तन उस मूढ बुद्धिने यह कन्या तो मारी ही गई कह कर गर्भको
 खाट कर शयन करती हुई और गर्भके जलासे भीगे हुए केशों
 वाली कन्याको खेंच लिया ३४ तदनन्तर कंसके सामने आने
 पर उस कठोर हृदयने उसको उठा कर घुमाना आरंभ कर दिया
 फिर उसने उसका तिरस्कार करके ऊपरको उठा एक माथ शिला
 पर पटक दिया, परन्तु शिला पर पटकने पर भी वह शिलासे न
 टकरा कर आकाशमेंको उड़ गई ॥ ३५॥३६ ॥ उस समय उस
 ने सहस्रा अपना गर्भका रूप छोड़ दिया उसके स्थानमें उसके
 केश खुल गए तथा उसके शरीरमें दिव्य चदन और मालायें
 दीखने लगी तब वह कंसका तिरस्कार कर आकाशमेंको उड़ती
 हुई चली गई ॥ ३७ ॥ उस समय उसका सब शरीर हीरोंसे
 शोभा पारहा था और उज्ज्वल मुकुट शोभा दे रहा था और वह
 सर्वदाके लिये कन्या बन गई तब उस दिव्य देवीकी देवता स्तुति
 करने लगे ॥ ३८ ॥ उस समय देवी नीला और पीला वस्त्र
 पहन रही थी उनके स्तन हाथीके गण्डस्थलकी समानस्थूल थे
 और उनका जघन रथकी समान चौड़ा था और मुख चन्द्रमाकी
 समान शोभा पारहा था और उन्होंने चतुर्भुजी रूप धारण कर

द्विस्पष्टवर्णाभा बालार्कसदृशोत्तणा । पयोधरस्तनवती संध्येव
 सपयोधरा ॥ ४० ॥ सा वै निशि तमोग्रस्ते वधौ भूतगणाकुले ।
 नृत्यती इमती चैव विपरीतेन भास्वती ॥४१॥ विहायसि गता
 रौद्रा पपी पानमुत्तमम् । जहास च महाहासं कंसं च रुपिता-
 ऽब्रवीत् ॥ ४२ ॥ कंसं कंसात्मनाशाय यदहं घातिता त्वया ।
 सहसा च समुत्क्षिप्य शिलायामभिपोथिता ॥४३॥ तस्मात्तवांत-
 कालेऽहं कृष्यमाणस्य शत्रुणा । पाटयित्वा करैर्देहमुष्णं पास्यामि
 शोणितम् ॥ ४४ ॥ एवमुक्त्वा वचो योरं सा यथेष्टेन वर्त्मना ।
 खं सा देवालयं देवी सगणा विचचार ह ॥ ४५ ॥ सा कन्या
 ववृथे तत्र वृष्णिशंखसुपूजिता । पुत्रवत् पात्यमाना सा वसुदेवा-
 लिया था ॥ ३६ ॥ उस समय उनके शरीरकी आभा विजलीकी
 दमकनेकी समान दमक रही थी और नेत्र बालसूर्यकी समान
 रक्त होरहे थे और वह अपने पेशोंकी समान स्तनोंसे मेंघों
 वाली संध्याकी समान दीख रही थी ॥ ४० ॥ उस समय अंध-
 कारसे घिरे हुए रात्रिके समय भूतोंसे घिरी हुई वह देवी नाच
 कर हँस कर और विपरीतभावसे प्रकाशित होकर शोभा पाने
 लगी ॥ ४१ ॥ वह भयंकरी देवी आकाशमें जाकर बढिया शर्वत
 को पीने लगी और वह देवी बडेजोरसे हँस क्रोधमें भरकर
 कहने लगी कि—॥४२॥रे कंस ! रे कंस !! तूने अपने नाशके
 लिये मुझे मारा था और एक साथ उठा कर शिला पर पटक
 दिया था ॥ ४३ ॥ इस लिये तेरे अन्त समयमें तेरा शत्रु तुझे
 खींचेगा, तब मैं तुझे पटक कर अपने हाथोंसे तेरे रक्तका पान
 करूँगी ॥ ४४ ॥ इस प्रकार कहनेके अनन्तर वह देवी यथेष्ट
 मार्गसे जाकर अपने अनुचरोंके साथ आकाशमें विहार करने
 लगी ॥ ४५ ॥ तब वह कन्या वृष्णिशंखोंके टोलोंसे पूजा पाकर
 बढने लगी वसुदेवकी आज्ञासे सब यादव उसकी पुत्रकी

ज्ञया तदा ॥ ४६ ॥ विद्धि चैनापथोत्पन्नामांशादेवी प्रजापतेः ।
 एकानंशां योगकन्यां रत्नार्थं केशवस्य तु ॥ ४७ ॥ तां चै सर्वे
 सुमनसः पूजयन्ति स्म यादवाः । देववहिन्यवपुषा कृष्णः सं-
 रक्षितो यया ॥ ४८ ॥ तस्यां गतायां कंसस्तु तां मेने मृत्युमा-
 त्तनः । विविक्ते देवकी चैव व्रीडितः समभाषत ॥ ४९ ॥ कंस
 उवाच । मृत्योः स्वयः कृतो यत्नस्तव गर्भा मया हताः । अन्य
 एवान्यतो देवि मम मृत्युरूपस्थितः ॥ ५० ॥ नैराशयेन कृतो यत्नः
 स्वजने प्रहृतं मया । देवं पुरुषकारेण न चातिक्रान्तवानहम् ५१
 त्यज गर्भकृतां चिन्तां सन्तापं पुत्रजं त्यज । हेतुभूतस्त्वहं तेषां
 सति कालचिपर्यये ॥ ५२ ॥ काल एव तृणां शत्रुः कालश्च परि-

समान पालना (पूजा) करते थे ॥ ४६ ॥ (हे जनमेजय !)
 इस देवी की तू प्रजापतिके अंशसे उत्पन्न हुई जान, यह अभिन्न
 अंश वाली (चित्कला) कन्या केशवकी रत्ना करनेके लिये
 उत्पन्न हुई थी ॥ ४७ ॥ जिसने देवता की समान
 दिव्य शरीर धारण कर श्रीकृष्णजीकी रत्ना की, थी उस देवी
 की सब यादव प्रसन्न मनसे पूजा करने लगे ॥ ४८ ॥
 उसके चले जाने पर कंसने समझा, कि—यही मेरी मृत्यु होगी
 और लज्जित हो देवभीसे एकांतमें कहने लगा, कि ॥ ४९ ॥
 कंसने कहा, कि—हे बहिन ! मैंने (न) मरनेके लिये यत्न करने
 की इच्छासे तेरे बालकोंको मार डाला था, परन्तु हे देवि ! अब
 पतीत होता है, कि मेरी मृत्यु अब किसी दूसरेसे ही होगी ५०
 मैंने कर्कश वन कर अपने आदिमियों पर प्रहार किया, किन्तु हाथ
 में पुरुषार्थ करके मारव्यको न पलट सका ॥ ५१ ॥ अब तू गर्भ
 की चिन्ताको त्याग दे और पुत्रसंबंधी सन्तापको भी बिसार दे,
 कालके लौटफेरसे मैं उनको मारनेका (काल—ईश्वरकी तलवार
 की समान) हेतु होगया ॥ ५२ ॥ काल ही मनुष्योंका शत्रु है

णामकः । कालो नयति सर्वं वै हेतुभूतस्तु मद्भिः ॥ ५३ ॥
 आगमिष्यन्ति वै देवि यथा भोगमुपद्रवाः । इदं तु कष्टं यज्जन्तुः
 कर्ताहमिति मन्यते ॥ ५४ ॥ मा कार्पाः पुत्रजां चिन्तां विलापं
 शोकजं त्यज।एवं प्रायो नृणां योनिर्नास्ति कालस्य संस्थितिः ५५
 एष ते पादयोर्मूढना पुत्रवत्तव देवकि । मद्गतस्त्यज्यतां रोषो
 जानाम्यपकृतं त्वयि ॥ ५६ ॥ इत्युक्तवन्तं तं कंसं सा देवी
 वाचयगत्रवीत् । साश्रुपूर्णमुखी दीना भर्तारमुद्गीक्षती । उत्तिष्ठो-
 त्तिष्ठ वत्सेति कंसं मातेव जल्पति ॥ ५७ ॥ देवक्युवाच । ममाग्रतो
 काल ही परिणाम देने वाला है , काल ही सबको ले जाता है और
 मुझसा माणी तो (व्यर्थ ही) कारणमात्र बन जाता है अर्थात् यह
 सब कालकी ही करतूत है मेरा इसमें कुछ दोष नहीं है तात्पर्य
 यह है, कि-कालरूप ईश्वर भी दोषी नहीं है क्योंकि-वह कर्मानु-
 सार फल देता है, कह' भी है, कि-“स्वकर्मैव नरं दन्ति न
 शस्त्ररिपुमृत्यवः । न भेतव्यं न वासभ्यं चोरहत्यावलाम्बते’
 अपना कार्य ही मनुष्यको मारता है, शस्त्र वैरी और मृत्यु उसको
 नहीं मारते हैं) ॥५३॥ हे देवि ! उपद्रव तो कार्यानुसार आते
 रहते हैं, परन्तु यह बड़े कष्टकी बात है, कि-जन्तु फिर भी अपने
 को कर्ता मानता रहता है ॥ ५४ ॥ अब तू पुत्रसम्बन्धी चिन्ता
 को त्याग दे और शोकपूर्वक विलाप करना छोड़दे, माणियोंकी
 यही रीति है प्राणियोंकी योनि ऐसीही है, कालका खण्डन नहीं
 किया जासकता ५५ हे देवकिमें तेरे चरणोंमें पुत्रकी समान मस्तक
 झुकाता हूँ, तू मेरे ऊपर वीच करना छोड़दे, मैं यह समझता
 हूँ, कि-मैंने तेरा अपराध किया है ॥ ५६ ॥ इस प्रकार कहने
 हुए कालने देवकीने कहा, उस समय देवकीने मुख पर आँसू
 यह रहे थे और वह स्वामीके मुखकी ओर देखती हुई कह रही
 थी ॥ ५७ ॥ देवकीने कहा था, कि-हे पुत्र ! तूने कालरूप बन

इतो गर्भा ये त्वया कालरूपिणा । कारणं त्वं न वै पुत्र कृतान्तो-
 प्यत्र कारखम् ॥ ५८ ॥ गर्भकृन्तनमेतन्मे सहनीयं त्वया कृतम् ।
 पादयोः पतता मूर्ध्ना स्वं च कर्म जुगुप्सता ५९ गर्भे तु नियतो
 मृत्युर्वाज्येपि न निवर्तते । युवापि मृत्योर्वशगः स्थविरो मृत
 एव तु ६० कालभूगमिदं सर्वं हेतुभूतस्तु मदिभः । अजाते दर्शनं
 नास्ति यथा वायुस्तथैत्र च ॥ ६१ ॥ जातोप्यजाततां याति विधात्रा
 यत्र नीयते । तद्गच्छ पुत्र या ते भून्महत्तं मृत्युकारणम् ॥ ६२ ॥
 मृत्युनापहने पूर्वं शोपो हेतुः प्रवर्तते । विधिना पूर्वदृष्टेन प्रजासर्गेण
 तत्त्वतः ॥ ६३ ॥ माता पित्रोस्तु कार्येण जन्मतस्तूपपद्यतोनिशम्प
 कर मेरे सामने ही मेरे पुत्रोंको मार डाला था, परन्तु इसमें तू
 ही कारण नहीं है, काल भी कारण है ॥ ५८ ॥ मैं अपना शिर
 तेरे चरणोंमें धर कर अपने कर्मकी निन्दा कर रहा हूँ, अतः तू
 गर्भवधके पापको क्षमा कर ॥ ५९ ॥ गर्भमें भी (किसी२ प्राणीकी
 कर्मानुसार) अवश्य ही मृत्यु होजाती है मृत्यु (नियत हो तो)
 बालरूपनमें भी नहीं टलती है, युवा पुरुष भी मृत्युके वशमें पड़
 जाता है और वृद्ध तो मर ही जाता है ॥ ६० ॥ यह सब कालके
 कारणसे होता है और तुझसा प्राणी तो निमित्तमात्र होजाता
 है, जो पुरुष नहीं होता है, उसका दर्शन नहीं होता, वह तो
 वायुकी समान रहता है ॥ ६१ ॥ और उत्पन्न हुआ प्राणी भी
 नष्ट होजाता है, और विधाता उसको जहाँ लेजाता है, वहाँ
 पहुँच जाता है ॥ ६२ ॥ मृत्युके द्वारा हरने पर फिर चाकी हेतु
 प्रवृत्त होता है, जन्मान्तरीय कर्मके द्वारा तथा जातकर्म आदि
 संस्कारों के द्वारा काल सृष्टि रचता है ६३ और जातिगुणके अनु-
 सार वे माता पिताके यहाँ उत्पन्न होते हैं (इन्हीं कारणोंसे
 वे मरगए और तूने उनको मार डाला, वास्तवमें तेरा कोई दोष
 नहीं है) ६४ देवकीके वचनको सुन कर कंस अपने मनमें जलता

देवकीवाक्यं स कंसस्त्वं निवेशनम् ॥६४॥ प्रविवेश स संरञ्चो
दहमानेन घेतसा। कृत्ये प्रतिहते दीनो जगाम विमना भृशम् ६५

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

वैशम्पायन उवाच । प्रागेव वसुदेवस्तु व्रजे शुश्राव रोहिणीम् ।
प्रजातां पुत्रमेवाग्रे चन्द्रात् कान्ततराननम् ॥ १ ॥ स नन्दगोपं
त्वरितः प्रोवाच शुभया गिरा । गच्छानया सहैव त्वं व्रजमेव
यशोदया ॥ २ ॥ तत्र तौ दारकौ गत्वा जातकर्मादिभिर्गुणैः ।
योजयित्वा व्रजे तात संवर्द्धेय यथासुखम् ॥ ३ ॥ रोहिण्यं च
पुत्रं मे परिरत्न शिशुं व्रजे । अहं वाच्यो भविष्यामि पितृपक्षेषु
पुत्रिणाम् ॥ ४ ॥ योहर्मकस्य पुत्रस्य न पश्यामि शिशोर्मुखम् ।
हियते हि बलात् प्रज्ञा प्रोज्ञस्यामि सतो मम ॥ ५ ॥ अस्माद्धि

हुआ अपने घरमें घुस गया, वह अपने उद्योगके विफल होने
पर मनमें खिन्न होता हुआ घरमें चला गया ॥ ६५ ॥ चतुर्थ
अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि- वसुदेवजीने (श्रीकृष्णजन्मसे)
पहिले ही सुना था, कि व्रजमें रोहिणीने चन्द्रमासे भी अधिक
सुन्दर मुख वाले पुत्रको उत्पन्न किया है ॥ १ ॥ तब उन्होंने
फुर्तीके साथ शुभ बाणीमें नन्दगोपसे कहा, कि-तुम इस यशोदा
को साथमें लेकर व्रजको ही जाओ ॥ २ ॥ तहाँ पर पहुँच कर
तुम इन दोनों बालकोंके जातकर्म आदि संस्कार और लिखाना
पढाना सुखपूर्वक कर इनको बढे करो ॥ ३ ॥ तुम व्रजमें मेरे
रोहिणी स्त्रीसे उत्पन्न हुए पुत्रकी रक्षा करोगे तो पुत्र वाले
पितरोंमें मेरा भी नाम लिया जासकेगा ॥ ४ ॥ मैंने अभी तक
अपने एक बालकका भी मुख नहीं देखा है, यद्यपि मैं बुद्धिमान्
हूँ, तथापि मेरी बुद्धि बलपूर्वक नष्ट होरही है ॥ ५ ॥ मुझे यह

मे भयं कंसान्निघृण्यादौ शिशोर्वधे । तद्यथा रौहिणेयं त्वं नन्द-
 गोप ममात्मजम् ॥ ६ ॥ गोपायसि यथा तात तत्त्वान्वेषी तथा
 कुरु । विघ्ना हि बहवो लोके बालानुत्प्रासयन्ति हि ॥७॥ स च
 पुत्रो मम ज्यायान् कनीयारश्च तवाप्ययम् । उभावपि समं नाम्ना
 निरीक्षस्व यथासुखम् ॥ ८ ॥ वर्द्धमानासुभावेतौ समानवयसौ
 यथा । शोभेतां गोव्रजे तस्मिन्नन्दगोप तथा कुरु ॥ ९ ॥ बाल्ये
 केलिकिलस्सर्वा बाल्ये मुषति मानवः । बाल्ये चण्डतमस्सर्वस्तत्र
 यत्नपरो भव ॥ १० ॥ न च वृन्दावने कार्यो गवां घोपः कथं-
 चत । भेतव्यं तत्र वसता केशिनः पापदर्शिनः ॥ ११ ॥ सरी-
 सृपेभ्यः कीटेभ्यश्शकुनिभ्यस्तथैव च । गोष्ठेषु गोभ्यो वत्सेभ्यो
 डर लग रहा है, कि-कहीं मेरे इस बालक पुत्रको भी निर्दयी
 कंस न मार डाले अत एव हे नन्दगोप ! तुम अपने पुत्रकी
 समान इस मेरे पुत्रकी रक्षा करना ॥ ६ ॥ तू बालघातियों
 के मौकोंको देखता हुआ इन बालकोंकी रक्षा करना,
 बहुतसे विघ्नकारी माणी बालकोंको व्रत करते रहते हैं ॥७॥ वह
 मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और यह तेरा छोटा पुत्र है, तुम दोनोंको नामा-
 नुसार सुखपूर्वक देखो (अर्थात् जैसे कृष्ण अतिस्नेहके कारण
 तुम्हारे चित्तको खँबता है तैसे ही संकल्प्य राम तुम्हारे चित्तको
 आनन्दित करें ! ॥ ८ ॥ हे नन्दगोप ! ये समान अवस्थानाले
 जिस प्रकार बढ कर गोव्रजमें शोभा पावें तैसा करो ॥ ९ ॥
 बालक अवस्थामें सब इच्छानुसार क्रीड़ा करने वाले होते हैं और
 सब मनुष्य बालरूपनमें मोहमें पड जाते हैं और बालरूपनमें
 (सब माणी) बालकको दवा सकते हैं अतः तुम सावधान
 रहना १० तुम वृन्दावनमें गोपोंका ग्राम कभी न बसाना, तहाँ
 पर रह कर तो पाप दृष्टि वाले केशीसे सर्वदा डरते रहना
 पड़ेगा ११ तुम इन दोनों बच्चोंकी सर्प, कीड़े और पत्तियोंसे

रक्ष्यो ते द्वाविमौ शिशू ॥ १२ ॥ नन्दगोप गता रात्रिशशीघ्र-
यानो ब्रजाशुगः । इमे त्वां व्याहरन्नीव पत्निणस्सव्यदक्षिणम् १३
रहस्यं वसुदेवेन सोऽनुज्ञातो महात्मना । यानं यशोदया सार्द्धमारोह
मुदान्वितः ॥ १४ ॥ कुपारस्स्कन्धवाह्यायां शिविकार्या समा-
हितः । संवेशयामास शिशुं शयनीयं महामतिः ॥ १५ ॥ जगाम
च विविक्तेन शीतलानिलसर्पिणा । बहूदकेन मार्गेण यमुनातीर
गामिना ॥ १६ ॥ स ददर्श शुभे देशे गोवर्द्धनसमीपगे । यमुना-
तीरसंबद्धशीतमारुतसेवितम् ॥ १७ ॥ विरुतश्वापदै रम्यं लता-
वन्त्नीमहाद्रुमम् । गोभिस्त्वृणविलम्बाभिःस्पन्दतीभिरलङ्कृतम् १८
समपचारं च गवां समतीर्थजलाशयम् । वृषाणां स्कन्धघातैश्च
विषाणोद्गृष्टपादपम् ॥ १९ ॥ भासामिपादानुसृतैश्शयेनैश्चा-

तथा गोठोंमें गौओं और बछड़ोंसे सर्वदा रक्षा करते रहना १२
हे नन्दगोप ! रात्रि बीत गई है अत एव तुम फुर्तीसे चलने वाले
बाले यानमें बैठ कर शीघ्रतासे जाओ, यह पत्नी दाई और
वाई और घूम कर यही बात कह रहे हैं । १३ । महात्मा
वसुदेवने जब एकान्तमें इस प्रकार कहा तब नन्द प्रसन्न
हो यशोदाके साथ रथमें बैठ गए ॥ १४ ॥ और उन्होंने कंधे
पर उठाई जाने वाली पालकीमें बालकको चढ़ा दिया, फिर उन
महानुद्धिमानने उसको गद्दे पर लिटा दिया ॥ १५ ॥ तब वह
यमुनाके तट पर चलने वाले अधिक जल वाले अत एव शीतल
समीर बहाने वाले विस्तृत मार्ग पर चलने लगे १६ तब उन्होंने
गोवर्द्धनके समीप शुभ देशमें यमुनाके तट पर बसे हुए और
शीतल पवनसे सेवित और विशिष्ट प्रकारका शब्द करनेवाले
श्वपादोंसे मनोहर, लता वन्त्नी और बड़े २ पेड़ों वाले और
तृणोंसे सने हुए मुख वाली और रंभाती हुई गौओंसे अलंकृत,
गौओंके चरनेके लिये समभूमि वाले और समान तीर्थ और

पितृभृश्रुतिः । सृगालमृगसिंहैश्च वसाभेदाशिभित्तम् ॥ २० ॥
 शार्दूलशब्दाभिरुतं नानापत्तिसगाकुलम् । स्वादुवृत्तफलं रम्यं
 पर्याप्तवृणवीराम् ॥ २१ ॥ गोव्रजं गोरुतं रम्यं गोपनारीभि-
 रावृतम् । हम्भारवैश्च वत्सानां सर्वतः कृतगिःस्वनम् ॥ २२ ॥
 शकटावर्त्तत्रिपुलं कण्टकीवाटसंकुलम् । पर्यन्तेष्वावृतं वन्यैर्बृहद्भिः
 पतितैर्द्रुमैः ॥ २३ ॥ वत्सानां रोपितैः कीलैर्दागभिश्च विभूषि-
 तम् । करीपाकीर्णवसुधं कटच्छन्नकुटीमठम् ॥ २४ ॥ ज्ञेय-
 प्रचारवहुलं हृष्टपुष्टजनावृतम् । दापनीपाशवहुलं गर्गरोद्धार-
 निस्वनम् ॥ २५ ॥ तक्रनिस्त्रावगलिनं दधिपण्डाद्रमृत्तिकम् ।
 मन्धानवत्तपोद्धारैर्गोपीनां जन्तितस्वनम् ॥ २६ ॥ काकपत्तधरै-

जलाशयवाले और बैलोंके कन्धे रगडनेसे तथा सीगोंके रगडने
 से झिले हुए वृत्त वाले और उनके पीछे चलने वाले वाज
 तथा वसा और भेदाका भक्षण करनेवाले शृगाल चीते और
 सिंहोंसे व्याप्त शार्दूलोंके शब्दसे अभिरुत (गूँगते हुए) अनेक
 प्रकारके पत्तियोंसे भरे हुए वृत्तोंके स्वादुफल वाले, काफी वृण
 और लताओं वाले, गोठ वाले गौओंके रंभानेसे और गोप्याकी
 स्त्रियोंसे रमणीय और बड़ड़ोंके हंभा शब्दोंसे चारों ओरसे
 शब्द करते हुए शकटोंके आवर्तवाले कांटोंकी वाड़वाले बड़े २
 जंगली वृत्तोंसे घिरे हुए और (दीवारोंमें) बड़ड़ोंके वांपंगके
 लिये चारों ओर लगी हुई कीलों वाले, सूखे हुए अन्ने उपलों
 से घिरे हुए चटाई निछे हुए मठों वाले उचित चिन्हों वाले मठों
 से भरे हुए, हृष्ट पुष्ट मनुष्योंसे भरे हुए इधर उधर सूडोंमें बँधी
 हुई बहुतसी मोठी २ रस्सियों वाले और रई चलानेकी मटकियों
 में होते हुए शब्द वाले, मटकेके बहनेसे मैले, दहीकी मलाईसे सनी
 हुई मट्टी वाले, मधनेके दण्डेके (घरघर) शब्द होनेसे शब्द
 गती (गाती हुई) गोपियोंके शब्द वाले और वारुपत्त धारण-

वर्तैर्गोपालैः क्रीडनाकुलम् । सार्गलद्वारगोवाटमध्ये गोस्थानसंकु-
लम् ॥२७॥ सर्पिषा पच्यमानेन सुरभीकृतमारुतम् । नीलपीता-
म्बराभिश्च तरुणीभिरलंकृतम् ॥ २८ ॥ वन्यपुष्पावतंसाभि-
र्गोपकन्याभिरावृतम् । शिरोभिर्घृतकुम्भाभिर्वद्वैरग्रस्तनाम्बरैः २९
यमुनातीरमार्गेण जलहारीभिरावृतम् । स तत्र प्रविशन् हृष्टो
गोव्रजं गोपनादितम् ॥३०॥ प्रत्युद्गतो गोपवृद्धैस्स्त्रीभिर्द्वैद्वाभि-
रेव च । निवेशं रोचयागास परिवर्ते सुखाश्रये ॥३१॥ सा यत्र
रोहिणी देवी वसुदेवसुखावहा । तत्र तं बालमूर्ध्नि कृष्णं गूढं
न्यवेशयत् ॥ ३२ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि गोव्रज-

गणनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

वैशम्पायन उवाच । तत्र तस्यासतः कालः सुमहानत्य-

करने वाले गोपाल बालकोंके अखाड़ोंसे भरे हुए और कुण्डीके
द्वारवाले गोवाटके मध्यमें बने हुए गोठ वाले और धीकेँ दौकसे
सुगंधित वायु वाले और नीले पीले वस्त्र पहिरने वाली तरुणी
स्त्रियोंसे व्याप्त, और वनके पुष्पोंको धारण करने वाली तथा
स्तनों पर चोली पहन कर यमुनाके तट परसे जल भर कर लाने
वाली शिरपर घड़े धर कर आती हुई गोपकन्याओंसे छाये हुए
गोव्रजको गन्दनीने देखा, तब वह गोपोंके सुजायमान गोव्रज
में प्रसन्न होकर घुसे ॥ १७-३० ॥ उस समय वृद्ध गोप और
गोपस्त्रियोंने उनका स्वागत किया, ता उन्होंने जहाँ रथ आदि
घूम सकें ऐसे सुखदायक स्थानमें अपनी द्वावनी डालता उचित
समझा ॥ ३१ ॥ तहाँ पर वसुदेवकी सुखदेने वाली रोहिणी
देवीने बालमूर्ध्नीके सपान दफरने वाले सुप्त कृष्णको भी बसा
लिया था ॥ ३२ ॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि- तहाँ पर बसने पर उनको गन्द-

वर्तन । गोब्रजे नन्दगोपस्य वल्लवत्वं प्रकुर्वतः ॥ १ ॥ दारकौ
 कृत्वा नागानौ वटघाते सुखं च तौ । ज्येष्ठः संकल्पणो नाम कनी-
 यान् कृष्ण एव तु ॥ २ ॥ मेघकृष्णस्तु कृष्णऽभूद्देहान्तरगतो
 हरिः । व्यवर्धत गवां मध्ये सागरस्य इवाम्बुदः ॥ ३ ॥ शक-
 टस्य त्वधः सुप्तं कदाचित् पुत्रवृद्धिनी । यशोदा तं समुत्सृज्य
 जगाम यमुनां नदीम् ॥ ४ ॥ शिशुलीलां ततः कुर्वन् सहस्त-
 चरणो त्रिपत् । रुरोद मधुरं कृष्णः पादावूर्ध्वं प्रसारयन् ॥ ५ ॥

गोपकी गोपता करते हुए बहुत समय बीत गया ॥ १ नामकरण
 संस्कार होने पर वे दोनों बालक सुप्तपूर्वक बड़े होने लगे उनमें
 बड़ेका नाम संकल्पण हुआ और छोटेका नाम कृष्ण था ॥ २ ॥
 दूसरे देहमें पहुँचे हुए हरि श्रीकृष्ण कहलाते थे, वह गौश्रॉके
 बीचमें समुद्रके मेघसी समान बढने लगे ॥ ३ ॥ एक समय पुत्र
 की आकांक्षा करने वाली यशोदा पुत्रको गाड़ीके नीचे शयन
 कराकर यमुना नदीकी ओर चली गई (श्रुतिमें लिखा है, कि-
 पृथु रथो दक्षिणाया अपांज्येनं देवासो अमृतासो अस्तु । कृष्णा-
 दुदस्यादर्यां विहायारिचकित्सन्ती माजुपाय क्षयाय" अर्थात् बड़ा
 भारी रथ दक्षिणदिशासम्बन्धी (मृत्यु देने वाला) हैं (शत्रुओं
 ने) उसको रख दिया था उसको अमृत देवताओंने चारों ओरसे
 घेर लिया था, इस समय वह रथ कृष्णको प्राप्त होकर उठ गया
 और आकाशमें पहुँच गिर कर नष्ट हो गया. तब माताको सदेह
 हुआ, कि-मनुष्य (मेरे बालक) का वहीं क्षय तो नहीं होगा,
 परन्तु अपने बालकको अज्ञत देख कर) रथके गिरनेसे यह
 बालक क्यों न नष्ट हुआ इसका कोई कारण न देखकर वह
 संदेहमें ही पड़ी रही परन्तु उसको यह प्रतीत नहीं हुआ, कि-
 यह ईश्वरका कृत्य है ॥ ४ ॥ तब कृष्ण शिशुलीला कर अपने
 हाथ पैरको फेकने लगे और उन्होंने मधुर स्वरसे रामे २ अपने

स तत्रैकेन पादेन शकटं पर्यवर्तयत् । न्युञ्जं पयोधराकांक्षी चकार
 च कुरोद च द्रष्टस्मिन्नन्तरे प्राप्ता यशोदा शीघ्रगामिनी । स्नाता
 मस्रवदिग्ध्रांगी बद्धवत्सेन सौरभी ॥ ७ ॥ सा ददर्श विपर्यस्तं
 शकटं वायुना विना । हाहेति कृत्वा त्वरिता दारकं जगृहे तदा
 न सा बुबोध तच्चेन शकटं परिवर्तितम् । स्वस्ति मे दारकायेति
 भीता भीता च साऽभवत् ॥ ६ ॥ किं नु वक्ष्यति ते पुत्र पिता
 परमकोपनः । त्वद्यथः शकटे सुप्ते अकस्माच्च विलोडिते ॥ १० ॥
 किं मे स्नानेन दुःस्नानं किं च मे गमने नदीम् । पर्यस्ते शकटे
 पुत्र यं त्वां परयाभ्यपाठ्यत् ॥ ११ ॥ एतस्मिन्नन्तरे गोभिरा-
 जगाम वनेचरः । कापायवाससी विभ्रन्नन्दगोपो ब्रजांतिकम् १२

चरणोंको ऊपरको उठा दिया ॥ ५ ॥ उन्होंने दूधकी इच्छासे
 अपने एक पैरसे ही रथको उठा कर-लौट दिया और रोने लगे
 इसी समय जिसके स्तनोंमेंसे दूध टपक रहा था ऐसी यशोदा
 स्नान कर शीघ्रतासे तहाँ पहुँच गई, इस समय उसी दशा
 घेरे हुए बड़दे वाली सुरभिकी समान थी ॥ ७ ॥ उसने 'विना
 श्रीं गी चले हुए रथको अस्तव्यस्त पड़े हुए देख कर हाहाकार
 करके शीघ्रताके साथ अपने पुत्रको उठा लिया ॥ ८ ॥ परन्तु
 उसको यह तत्त्व न मालूम पड़ा, कि-गाड़ी क्यों लौट गई थी,
 और वह मेरे बालरुक्ता कल्याण हो, कह कर मसन्न हुई और
 डर भी गई ॥ ६ ॥ (और कहने लगी, कि-) तू शकटके नीचे
 सोरहा था और रथ अकस्मात् टूट गया (यह सुन कर) तेरे
 परम क्रोधी पिता क्या कहेंगे ॥ १० ॥ मेरे स्नान करने और
 नदी पर जानेमें विवहार है, क्योंकि-मैंने तुम्हें गाड़ी लौट
 लानेसे उससे छिपा हुआ देखा ॥ ११ ॥ इस समय कपायवसन
 धारण करने वाले नन्दजी भी वनमेंसे गौओंके साथ २ ब्रजमें
 लौट आये ॥ १२ ॥ उन्होंने देखा तो रथ अस्तव्यस्त पड़ा है

स ददर्श विपर्यस्तं पिन्नभांडयतीघटम् । अपास्तपूर्विपिन्नाक्षं
 शकटं चक्रमौलिनम् ॥ १३ ॥ भीतस्त्वरितगागम्य सहसा साश्रु-
 लोचनः । अपि मे स्वस्ति पुत्रायेत्यसकृद्वचनं वदन् ॥ १४ ॥
 पिबन्तं स्तनगालक्ष्य पुत्रं स्नस्थोऽनवीत् पुनः । वृषयुद्धं विना-
 केन पर्यस्तं शकटं मग ॥ १५ ॥ प्रत्युवाच यशोदा तं भीता
 गद्गदभाषिणी । न विजानाम्यहं केन शकटं परिवर्तितम् ॥ १६ ॥
 अहं नदीं गता सौम्य चैलपन्नालनाभिनी । आगता च विपर्य-
 स्तनपश्यं शकटं भुवि ॥ १७ ॥ तगोः कथगतोरेवपन्नृवंस्तत्र दारकाः ।
 अनेन शिशुना ज्ञानमेतत् पादेन लोडितम् ॥ १८ ॥ अस्माभिः
 संगतस्त्रिश्च दृष्टमेतद्यदृच्छया । नन्दगोपस्तु तच्छ्रुत्वा विस्मयं
 परमं ययौ ॥ १९ ॥ महृष्टश्चैव भीतश्च किमेतदिति चिंतयन् ।

और उसके पहियेके टप धुरके अग्रभाग और बन्धन टूट फूट
 गए थे उसका धुरा चक्र और जुआ भी टूट गया था १३ यह
 देख कर क्या मेरा पुत्र सकुशल होगा यह वार २ सोच कर
 वह डर गए और उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये १४ परन्तु जब
 उन्होंने अपने पुत्रको दूध पीते हुए देखा तो वह स्वस्थ हुए और
 उन्होंने कहा, कि-बैलोंके बिना लड़े ही मेरे शकटको किसने
 तोड़ डाला ॥ १५ ॥ तब डरी हुई यशोदाने उनसे गद्गद वाणीमें
 कहा, कि-मैं नहीं जानती, कि-इस शकटको किसने तोड़ डाला
 है १६ हे सौम्य ! मैं वस्त्र धोनेके लिये नदी पर गई थी, तहाँसे
 आकर मैंने देखा तो पृथ्वी पर शकट गड़बड़ पड़ा है १७ वे
 जब इसप्रकार बातचीत कर रहे थे तब बालक बोल उठे, कि-इस
 बालकने इस गाड़ीको तोड़ डाला है । १८ । उस समय हम भी
 गिर पड़े थे और हमने अकस्मात् इस बातको देखा था, यह
 बात सुन कर नन्दगोप बड़े विस्मयमें पड़ गया १९ और, हर्षमें
 भर गया और यह क्या हुआ यह विचार कर डर भी गया,

न च ते श्रद्धधुर्योगाः सर्वे मानुषबुद्धयः ॥ २० ॥ आश्चर्यमिति
 ते सर्वे विस्मयोत्फुल्ललोचनाः । स्वे स्थाने शकटं चैव चक्रवन्ध-
 मकारयन् ॥ २१ ॥ वैशम्पायन उवाच । कस्यचित्त्वथ कालस्य
 शकुनीचेपचारिणी । धात्री कंसस्य भोजस्य पूतनेति परिश्रुता २२
 पूतना नाम शकुनी घोरा गाणिभयंकरी । आगामार्धरात्रे वै
 पत्नी क्रोधाद्विधुन्वती ॥ २३ ॥ ततोऽर्धरात्रसमये पूतना प्रत्य-
 दृश्यत । व्याघ्रगम्भीरनिर्घोषं व्याहरन्ती पुनः पुनः ॥ २४ ॥
 निलिन्धे शकटात्ते सा प्रसन्नोत्पीडयपिणी । ददौ स्तनं च कृष्णाय
 तग्मिन् सुप्ते जने निशि ॥ २५ ॥ तस्या स्तनं पर्षा कृष्णः प्राणैः
 सह विनद्य च । छिन्नस्तनी तु सहसा पपान शकुनी भुवि २६

गे.प परमात्मामें मानुषबुद्धि रखते थे अर्थात् उनके भगवान् न
 सभक्त कर मनुष्य सभक्ते थे, अत एव उन्हें इस बातका
 विश्वास न हुआ २० उन्होंने इस बातको एक आश्चर्यजनक
 घटना समझा, इससे विस्मयके कारण उनके नेत्र खिल उठे थे,
 फिर उन्होंने शकटको स्थान पर खड़ा कर उसके पहिये आदि
 ठीक करना आरम्भ कर दिया २१ वैशम्पायनजीने कहा, कि-
 कुछ समयके अनन्तर जो (वक्रकी अनुजा होनेसे) पत्निणी थी
 परन्तु मनुष्यका रूप धारण करती थी और भोजवंशी कंसकी
 धाई थी और पूतना नामसे प्रसिद्ध थी २२ वह पूतना नाम
 वाली सब गाणियोंको भयभीत करने वाली पत्निणी क्रोधसे
 अपने दोनों पारोंको फटफटाती हुई आधी रात्रिके समय तहाँ
 आई २३ उस आधी रात्रिके समय व्याघ्रकी समान गम्भीरता
 से बार बार घोष करती हुई पूतना तहाँ प्रकट हुई २४ वह अपने
 स्तनोंसे दूध टपकाती हुई गाड़ीके धुरे पर बैठ गई और जब
 रात्रिमें मनुष्य सो गए तब उसने कृष्णके मुखमें स्तन दे दिया २५
 तब श्रीकृष्ण उसके स्तनको पीने लगे, उस समय वह शकुनी

तेन शब्देन विव्रस्तास्ततो वुवुधिरे भयात् । स नन्दगोपो गोपा
 वै यशोदा च सुविवलवा ॥ २७ ॥ ते नामपश्यन् पतितां विसंज्ञां
 विषयोधराम् । पूतनां पतितां भूमी वज्रेणैव विदारिताम् ॥ २८ ॥
 इदं किंत्विगि संव्रस्ताः कस्येदं कर्म चेत्यपि । नन्दगोपं पुरस्कृत्य
 गोपास्ते पर्यवारगन् ॥ २९ ॥ नाध्यगच्छंत च तदा हेतुं तत्र
 फदाचन । आश्चर्यमाश्चर्यमिति द्रुवन्तोऽनुशयुर्मुद्धान् ३० गतेषु तेषु

वही जोरसे डकराने लगी और उसके प्राण निकलने लगे यह स्तन
 के कट जानेपर एक साथ भूमि पर गिर पड़ी २६ उस समय उस
 शब्दसे वे सब भयभीत हो त्रस्त हो कर जाग गए उस समय
 नन्दयशोदा और सकल गोप मूढ़से बन गए थे २७ उस समय
 उन्होंने पूतनाको वज्रसे विदीर्णकी हुई की समान स्तनरहित हो
 वेपानदशामें पृथ्वीमें लोटते हुए देखा २८ उस समय यह किस
 का कर्म है, यह विचार कर त्रस्त होते हुए गोपोंने और नन्द-
 गोपने उसको घेर लिया २९ उस समय उनको पूतनावधका कुल्ल
 कारण मालूम न हुआ और वे बड़ा आश्चर्य है ! बड़ा आश्चर्य
 है ॥ यह कहते हुए अपने २ घरों को चले गए (यह बात नन्द
 आदिको न मालूम हुई परन्तु बालरूप गोप इस वानको जानते
 ही थे श्रुतिमें भी लिखा है कि—“ हेतिः पक्षिणी न दधात्यस्माना-
 पूर्वा पदं कृणुते अग्निधाने । शन्नो गोभ्यः पुरुषेभ्यश्चास्तु मा नो
 हिंसीदिह देवाः कपोत ।” अर्थात् आयुधकी समान बध करने
 वाली पूतनारूपी पक्षिणी हम व्रजमें स्थित व्यक्तियोंका तिरस्कार
 नहीं करती है, मृत्युत जठराग्निके निमित्त शिशुकी जठराग्निको
 स्तनदानसे वृत्त करनेके लिये परलोकको भेजने वाले श्रीकृष्णके
 शरीरको प्राप्त होगा अर्थात् उसने श्रीकृष्णको पिलानेके
 लिये अपनी मृत्युरूप श्रीकृष्णके शरीरका स्पर्श किया था ३०
 जब गोप विस्मित होते हुए अपने घरोंको चले गए, तब संभ्रम

गोपेषु विस्मितेषु यथाग्रहम् । यशोदां नन्दगोपस्तु पप्रच्छ गत-
संभ्रमः ॥ ३१ ॥ कोऽयं विधिर्न जानामि विस्मयो मे महान-
यम् । पुत्रस्य मे भयं तीव्रं भीरुत्रं समुपागतम् ॥ ३२ ॥ यशोदा
त्वब्रवीद्भीता नार्यं जानामि किं त्विदम् । दारकेण सहानेन सुप्ता
शब्देन बोधिता ॥ ३३ ॥ यशोदागामजानन्त्यां नन्दगोपः स-
वांधवः । कंसाद्भयं चकारोग्रं विस्मयं च जगाग ह ॥ ३४ ॥
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि शिशुचर्यायां
शकटभंगपूतनावधौ नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

वैशम्पायन उवाच । काले गच्छति तौ सौम्यो दारकौ कृत-
नामकौ । कृष्णसंस्कारौ चोर्भौ रिगिणौ सगपद्यताम् ॥ १ ॥
तावन्योन्यगतौ बालौ बाल्यादेवैकतां गतौ । एकमूर्तिधरौ कान्तौ
बालनन्दार्कवर्चसौ ॥ २ ॥ एकनिर्माणनिर्मुक्तावेकशय्यासनाशनी ।

रहित हुए नन्दगोपने यशोदासे वृष्णा, कि-३१ यह किस विधिसे
होगया, यह मेरी समझमें कुछ नहीं आता, गुप्ते बड़ा विस्मय
होरहा है, मेरे पुत्र पर उसको डराने वाला बड़ा भारी भय
आपडा था ३२ तब यशोदाने डरते २ कहा, कि-हे आर्य! मेरी
समझमें कुछ नहीं आता, कि-यह क्या होगया, मैं तो सोरही
थी और इस शब्दको सुनकर मैं और मेरा बच्चा जाग उठा ३३
जब नन्दने सुना, कि-यशोदा भी इस बातको नहीं जानती, तब
तो वह रुंससे बहुत डरे और उन्हें बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३४ ॥

छठा अध्याय समाप्त ६

वैशम्पायनजीने कहा, कि-नामकरणसंस्कार होने पर वे कृष्ण
और संस्कार नामक बालक कुछ समयके अनन्तर घुटनोंसे
सरक २ कर चलने लगे १ वे आपसमें सर्वदा मिले रहने वाले
बालक बालरूपनमें भी अभिन्न होजाते थे और वे एक शरीर
वाले दीखते थे और वे बाल चन्द्रगा और बाल मूर्धकी समान

एकनेपरानेकं पुष्यपाणीं शिशुवनम् ॥ ३ ॥ एककार्यन्तर-
गतावेकदेही द्विधा कृतौ । एककार्यां महावीर्यावेकस्य शिशुता
गतौ ॥४॥ एरुपमाणी लोकानां देववृत्तान्तमानुषी । कृत्स्नस्य
जगते गोपौ संवृतौ गोपदारकौ ॥ ५ ॥ अन्योन्यव्यतिपक्ताभिः
क्रीडाभिरभिषोभितौ । अन्योन्यकिरणग्रस्तौ चन्द्रसूर्याविवाम्बरे ६
विसर्पन्तौ तु सर्वत्र सर्पभोगभुजावुभौ । रेजतुः पांसुदिग्भागी
दसौ कलभकाचिव ॥ ७ ॥ क्वचिद्भस्मप्रदीप्तौ करीपमोक्षितौ

दमक रहे थे २ वे अभिन्न थे और जन्मरहित थे वे एक खाट
और एक आसन पर बैठते थे वे एकसा रूप धारण कर एक
दूसरेको पुष्ट कर शिशुवनका पलन कर रहे थे ३ वे एक ही
सूक्ष्म कार्यको करनेके लिये आये थे वे ऐसे प्रतीत होते थे माने
एक शरीरके दो शरीर हो गए हं, वे दोनों महावीर्य एकसा
कार्य करनेके लिये एक (नन्द) केही शिशु वन गए थे ४
वे लोकोंको एकसे प्रमाण (आकार) वाले दीखते थे, देवताओं
का वृचान्त (सिद्धान्त) है, कि—“ पापिष्ठोंका वध करना चाहिये
और यज्ञ दान आदिकी प्रवृत्ति करनी चाहिये” इसीलिये उन
दोनोंने मनुष्यका अवतार धारण किया था वे सम्पूर्ण जगत्की
रक्षा करने वाले थे, परन्तु (देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके
लिये) गोपोंके बालक वन गए थे ॥५॥ वे आपसमें लिपट कर
क्रीडा करते हुए ऐसी शोभा पाते थे जैसे पूर्णिमाके दिन अस्त
होतेहुए) सूर्य और (उदय होते हुए) चन्द्रमाकी किरणें आपसमें
मिल रही हों ॥ ६ ॥ वे सर्पकी समान भुजा वाले दोनों
(भाई) सर्वत्र सररते थे और धूलिधूसरित होकर मत्त हस्ति-
शावकोंकी समान दीखते थे ॥ ७ ॥ कभी उनके शरीर भस्म
लगनेसे दिपने लगते थे और कभी अग्ने उपलोंकी धूलि उनके
लग जाती थी इस प्रकार वे दो अग्निपुत्र स्कन्द कुमारोंकी समान

क्वचित् । तौ तत्र पर्यथावेतां कुमारविव पावकी ॥८॥ क्वचि-
 ज्ञानुगिरुद्धृष्टैः सर्पमाणौ विरेजतुः । कीडन्तौ वत्सशालासु
 शकृद्दिग्धांगमूर्धजौ ॥ ९ ॥ शुशुभाते श्रिया जुष्टावानन्दजननौ
 पितुः । जनं च विप्रकुर्वाणौ विहसन्तौ क्वचित् क्वचित् ॥१०॥
 तौ तत्र कौतूहलिनौ मूर्धजव्याकुलेक्षणौ । रेजतुरचन्द्रवदनौ
 दारकौ सुकुमारकौ ॥११॥ अतिप्रसक्तौ तौ दृष्ट्वा सर्वत्रजविचा-
 रिणौ । नाशकतौ वारगितुं नन्दगोपः सुदुर्दमौ ॥ १२ ॥ ततो
 यशोदा संक्रुद्धा कृष्णं कमललोचनम् । आनाय्य शकटीमूले
 भर्त्सयन्ती पुनः पुनः ॥१३॥ दाम्ना चैवोदरे बध्वा प्रत्यवन्ध-
 दुलूखले । यदि शक्नोपि गच्छेति तमुक्त्वा कर्म साऽकरोत् १४
 व्यग्रायां तु यशोदायां निर्जगाम ततो गणात् । शिशुलीलां ततः

दौड़ने लगते थे ॥ ८ ॥ और कभी २ वे अपने घुटनोंको उठा
 कर सरकते थे तो वत्सशालामें उनके केशों पर गोबर पड़ जाता
 था, तब वे परम शोभा पाते थे ९ वे कभी २ मनुष्योंका (माखन
 की चोरी आदि) उपकार करके हँसने लगते थे, उस समय वे
 शोभासम्पन्न होकर अपने पिताको बड़ा आनन्द देते थे १० जब
 वे चन्द्रवदन सुकुमार बालक कुतूहलमें भर जाते थे तब बालोंसे
 उनके नेत्र ढक जाते थे (और वे मेघोंमें छिपे हुए चन्द्रमाकी सगान)
 शोभा पाते थे ११ वे दोनों कीड़ामें अधिक आसक्त होकर सारे
 व्रजमें घूमते थे उस समय उन दुर्दमनीय दोनों बालकोंको नन्द-
 गोप भी न रोक सके १२ तब तो यशोदा क्रोधमें भर गई और
 वह कमललोचन श्रीकृष्णको पकड़ कर बारंबार उनको डराती
 हुई गाड़ीके पास ले गई १३ और उसने उनके उदरमें रस्ती बाँधदी
 उसे उलूखल (मूसल में बाँध दिया, फिर उसने कहा, कि 'यदि
 तुझमें शक्ति है तो अब चला जा' यह कह कर अपना कर्म
 करनेको चली गई १४ जब यशोदा अपने काममें लग गई तब

कुर्वन् कृष्णो विस्मापयन् व्रजम् ॥ १५ ॥ सौगणान्निःशृतः कृष्णः
 कर्षमाण उलूखलम् । यमलाभ्यां मृदाभ्यामर्जुनाभ्यां चरन् वने ।
 मध्यान्निश्चक्राम तयोः कर्षमाण उलूखलम् ॥ १६ ॥ तत्तस्य
 कर्षतो वद्धं तिर्यग्गतमुलूखलम् । लग्नं ताभ्यां समूलाभ्यामर्जु-

श्रीकृष्ण अपने आंगनमेंसे निकले और बालक्रीड़ा करके व्रजको
 विस्मय करने लगे १५ आंगनमेंसे निकलनेके अनन्तर उलूखल
 को खेंचते हुए श्रीकृष्ण वनमें प्राचीन कालके यमलार्जुन
 नामक वृक्षोंके पास पहुँचे और उलूखलको खेंचते २ उन
 दोनों वृक्षोंके बीचमेंसे निकल गए ॥ १६ ॥ उलूखल खिचते
 खिचते तिरछा होगया था और श्रीकृष्णके खेंचने पर वह
 उन वृक्षोंकी जड़में लग कर उनको जड़सहित खेंचने लगा
 ('यत्र मन्थां विवध्नते रश्मीन् यमित्वा इव उलूखलसुतानामवेद्वि-
 न्द्रजलगुलः । ता नो अत्र वनस्पती ऋषवावृष्वेभिः सोतृभिः ॥
 इन्द्राय मधुमत्सुतम्' इति, यत्र उलूखले मन्थां मन्थानमिव मन्थानं
 लोक्मलेशकरं मां विवध्नते विशोपेण वध्नन्ति मातरः रश्मी-
 नादय रश्मिभिरित्पर्थः यमित्वा इव विनिष्टहीनुमिव न तु वस्तुतो
 निष्टहीतुं मातृत्वेन मयि स्निग्धत्वात् तेन उलूखलेन सुतानां
 पीडितानां कर्मणि पृष्टी उलूखलपीडितान् अस्थान् हे इन्द्र मोचन-
 समर्थ अत्र रत्न पादादित्वादात्पुदात्तमाख्यानम् इदु एवमेव त्वं
 जग्गुलोऽसि एवं मुञ्चामीति जल्पितुं मां च गोपितुं त्रातुं लातुं
 आदातुं स्वाधीनं कर्तुं च समर्थोऽसि यत् अतोऽत्र मागित्पर्थः एवं
 यदा सर्वान् मार्थयन्नपि मोचनं न लभते तदा वनस्पत्योरन्तरा
 गत्वा वन्धनदाम त्रोटयितुं यावद्बलं करोमि तावद्वनस्पती एव
 उन्मूलितो दृष्ट्वा वदति ता नः इति त्रातो नोऽस्माकं व्रजवासिनां
 वनस्पतिभूतो अतिप्रसिद्धो यमलो अर्जुनजातीयो भो वनस्पती
 अथ इन्द्राय इन्द्रं मनिगन्तुं सुतं तदुन्मूलनेन आत्मानं पीडयन्

नाभ्यां चकर्म च ॥१७॥ तावर्जुनो कृष्यगाणौ तेन बालेन रंहसा।
समूलधितपौ भग्नौ स तु मये जहास च ॥ १८ ॥ निदर्शनार्थं
गोपानां दिव्यं स्वबलमास्थितः । तदाम तस्य बालस्य प्रभावा-
दभवद् दृढम् ॥१९॥ यमुनातीरमार्गस्था गोप्यस्तं ददृशुः शिशुम् ।

तदेव मधुमत् अमृतयुक्तं अतिसम्पगित्यर्थः यतः ऋष्वौ गति-
मन्तौ युवां स्थावरत्वान्मुक्तौ स्य इत्यर्थं ऋष्वेभिर्गतिमद्भिर्जन्मैः
जनैः सोऽपिरस्मद्वन्धनकरैरुपलन्तितौ । अर्थात् मेरी माताओंने
लोकको बलेश देने वाले मुझे रस्सिये लेकर उलूखलमें रईकी
सगान बाँधसा दिया था, वास्तवमें वे मुझे पकड़ना नहीं चाहती
थीं, क्योंकि-वे मुझसे स्नेह करती थीं फिर मैंने कहा, कि-
हे छुड़ानेमें समर्थ ! तुम उलूखलसे पीड़ा पाते हुए मेरी रक्षा
करो तुम मेरी रक्षा करो क्योंकि तुम यह कहनेमें और करनेमें
समर्थ हो अतः मेरी रक्षा करिये, जब सबसे इस प्रकारकी प्रार्थना
करने पर भी मैं नहीं छूटा, तब मैं दो वनस्पतियोंके बीचमें
जाकर वन्धनकी रस्सी तोड़नेका यत्न करने लगा, परन्तु
इतनेमें ही वनस्पति टूट गए यह देख मैं कहने लगा, कि-अर्थात्
हे वनस्पती ! तुम इन्द्रार्जुन रूपसे हम व्रजवासियोंकी रक्षा करने
वाले थे, परन्तु अब मैंने तुमको इन्द्रके पास भेजनेके लिये अपने
को पीड़ित कर अमृतयुक्त कर दिया है, अब मुझे वन्धनमें डालने
वाले जंगम गनोंने तुम्हें देख लिया है ॥१७॥ बालरु श्रीकृष्णके
द्वारा वेगपूर्वक खंचनेसे वे दोनों वृक्ष जड़ उखड़ कर जापड़े
और उनके बीचमें (स्थित) श्रीकृष्ण अट्टहास्य करने लगे १८
तदनन्तर गोपोंको दिखानेके लिये उन्होंने अपने दिव्य बलका
आश्रय लेलिया और वह रस्सी उस बालरुके बलसे टूट हो गई
थी १९ यमुनातटके मार्ग पर खड़ी हुई गोपियोंने तब उस बालरु
को देखा, तब वे दुन्द मनायी हुई और चिल्लाती हुई यशोदाके

क्रन्दन्त्यो विस्मयन्त्यश्च यशोदां ययुरंगनाः ॥ २० ॥ तास्तु
 संभ्रान्तवदना यशोदामूर्चुरंगनाः । एहागच्छ यशोदे स्वं संभ्र-
 मात् किं विलम्बसे ॥ २१ ॥ यौ तावर्जुनवृत्तौ तु व्रजे सत्योप-
 याचनौ । पुत्रस्योपरि तावेतौ पतितौ ते महीरुहौ ॥ २२ ॥ दृढेन
 दाम्ना तत्रैव बद्धो वत्स इवोदरे । जहास वृत्तयोर्मध्ये तर पुत्रः
 स बालकः ॥ २३ ॥ उत्तिष्ठ गच्छ दुर्मथे मूढे पण्डितमानिनि ।
 पुत्रमानय जीवन्तं मुक्तं मृत्युमुखादिव ॥ २४ ॥ सा भीता सह-
 स्मेत्थाय हाहाकारं प्रकुर्यती । तं देशमगमद्यत्र पातितौ तापुभौ
 दुभौ ॥ २५ ॥ सा ददर्श तयोर्मध्ये द्रुमयोरात्मजं शिशुम् । दाम्ना
 निवद्धमुदरे कर्माण्मुलूखलम् ॥ २६ ॥ सा गोपी गोपवृद्धश्च
 समुवाच व्रजस्तदा । पर्यागच्छन्त ते द्रष्टुं गोपेषु महद्भुतम् २७

पास दौड़ गई २० उस समय उन्होंने घबड़ाते २ यशोदासे
 कहा, कि-अरी यशोदा ! तू शीघ्र ही आ ! संभ्रममें पड़ कर
 विलम्ब क्यों कर रही है ॥ २१ ॥ अरी व्रजमें जो प्रार्थना करने
 पर-इच्छाको सत्य कर देते थे वे देवताकी समान दोनों अर्जुन
 वृत्त तेरे पुत्रके ऊपर गिर पड़े थे ॥ २२ ॥ परन्तु कमरसे दृढ
 रस्तीसे बद्धइकी समान वैधा हुआ तेरा बालक पुत्र उन दोनों
 वृत्तोंके बीचमें हँस रहा है ॥ २३ ॥ अरी दुर्बुद्धि ! अरी मूर्खे !
 अरी पण्डितमानिनी ! तू शीघ्र उठ कर चल और मृत्युके मुखसे
 छूट कर जीवित बचे हुए अपने पुत्रको उठा कर ला ॥ २४ ॥
 तब तो यशोदा हाहाकार करके एक साथ उठ खड़ी हुई और
 हाहाकार करती हुई तहाँको चली जहाँ वे दोनों वृत्त गिर पड़े
 थे ॥ २५ ॥ तहाँ उसने देखा, कि-कमरमें बँधी हुई रस्तीसे
 उलूखलके खँचता हुआ उसका छोटा बालक दोनों वृत्तोंके बीच
 में बैठा हुआ है ॥ २६ ॥ उस गोपीने और वृद्ध गोपने व्रजमें
 यह बात कह दी, तब वे सब गोपोंमें हुई इस अद्भुत बातको

नाभ्यां चकर्प च ॥१७॥ तावर्जुनौ कृष्यमाणौ तेन बालेन रंहसा।
समूलषिटपौ भग्नौ स तु म ये जहास चै ॥ १८ ॥ निदर्शनार्थं
गोपानां दिव्यं स्ववलागास्थितः । तदाम तस्य बालस्य प्रभावा-
दभवद् दृढम् ॥१९॥ यमुनातीरमार्गस्था गोप्यस्तं दृष्टुः शिशुम् ।

तदेव गधुमत् अमृतयुक्तं अतिसम्पत्तिर्गर्भः यतः ऋष्वौ गति-
मन्तौ युवां स्थावरत्वान्मुक्तौ स्य इत्यर्थं ऋष्वेभिर्गतिमद्भिर्जन्मैः
जनैः सातृभिरस्मद्बन्धनकरैरुपलन्तितौ । अर्थात् मेरी माताओं ने
लोकको बलेश देने वाले मुझे रस्सिये लेकर उलूखलमें रईकी
सगान बाँधसा दिया था, वास्तवमें वे मुझे पकड़ना नहीं चाहती
थीं, क्योंकि-वे मुझसे स्नेह करती थीं फिर मैंने कहा, कि-
हे छुड़ानेमें सगर्भ ! तुम उलूखलसे पीड़ा पाते हुए मेरी रक्षा
करो तुम मेरी रक्षा करो क्योंकि तुम यह कहनेमें और करनेमें
समर्थ हो अतः मेरी रक्षा करिये, जब सबसे इस प्रकारकी प्रार्थना
करने पर भी मैं नहीं झूटा, तब मैं दो वनस्पतियोंके बीचमें
जाकर बन्धनकी रस्सी तोड़नेका यत्न करने लगा, परन्तु
इनमेंमें ही वनस्पति टूट गए यह देख मैं कहने लगा, कि-अर्थात्
हे वनस्पती ! तुम इन्द्रार्जुन रूपसे हम प्रजवासियोंकी रक्षा करने
वाले थे, परन्तु अब मैंने तुमको इन्द्रके पास भेजनेके लिये अपने
को पीड़ित कर अमृतयुक्त कर दिया है, अब मुझे बन्धनमें डालने
वाले जंगम गनोंने तुम्हें देख लिया है ॥१७॥ बालक श्रीकृष्णके
द्वारा वेगपूर्वक खँचनेसे वे दोनों वृक्ष जड़ उखड़ कर जापड़े
और उनके बीचमें (स्थित) श्रीकृष्ण अट्टहास्य करने लगे १८
तदनन्तर गोपोंको दिखानेके लिये उन्होंने अपने दिव्य बलका
आश्रय लेलिया और वह रस्सी उस बालकके बलसे टूट होगई
थी १९ यमुनातटके मार्ग पर खड़ी हुई गोपियोंने तब उस बालक
को देखा, तब वे दुन्द मनाती हुई और धिन्लाती हुई यशोदाके

धान्दन्त्यो विस्मयन्त्यश्च यशोदां ययुरंगनाः ॥ २० ॥ तास्तु
 संभ्रान्तवदना यशोदाम्बुचुरंगनाः । एहागच्छ यशोदे स्वं संभ्र-
 गात् किं विलम्बसे ॥ २१ ॥ यौ तानर्जुनवृत्तौ तु व्रजे सत्योप-
 याचनौ । पुत्रस्योपरि तावेतौ पतितौ ते महीरहौ ॥ २२ ॥ दृढेन
 दाम्ना तत्रैव बद्धो वत्स इवोदरे । जहास वृत्तयोर्मध्ये तर पुत्रः
 स बालकः ॥ २३ ॥ उत्तिष्ठ गच्छ दुर्मध्ये मूढे पण्डितमानिनि ।
 पुत्रमानय जीवन्तं मुक्तं मृत्युमुखादिव ॥ २४ ॥ सा भीता सह-
 स्मेत्याय हाहाकारं मकुर्वती । तं देशमगमद्यत्र पातितौ तावुभौ
 द्रुपौ ॥ २५ ॥ सा ददर्श तयोर्मध्ये द्रुमयोरागजं शिशुम् । दाम्ना
 निबद्धमुदरे कर्णमाणमुलूखलम् ॥ २६ ॥ सा गोपी गोपवृद्धश्च
 समुवाच व्रजस्तदा । पर्यागच्छन्न ते द्रष्टुं गोपेषु महद्भुतम् २७

पास दौड़ गई २० उस समय उन्होंने धक्काते २ यशोदासे
 कहा, कि—अरी यशोदा ! तू शीघ्र ही आ ! संभ्रममें पड़ कर
 विलम्ब क्यों कर रही है ॥ २१ ॥ अरी व्रजमें जो प्रार्थना करने
 पर इच्छाको सत्य कर देते थे वे देवताकी समान दोनों अर्जुन
 वृत्त तेरे पुत्रके ऊपर गिर पड़े थे ॥ २२ ॥ परन्तु कमरसे दृढ
 रस्सीसे बद्धके समान बँधा हुआ तेरा बालक पुत्र उन दोनों
 वृत्तोंके बीचमें हँस रहा है ॥ २३ ॥ अरी दुर्बुद्धि ! अरी मूर्ख !
 अरी पण्डितमानिनी ! तू शीघ्र उठ कर चल और मृत्युके मुखसे
 छूट कर जीवित बचे हुए अपने पुत्रको उठा कर ला ॥ २४ ॥
 तब तो यशोदा हाहाकार करके एक साथ उठ खड़ी हुई और
 हाहाकार करती हुई तहाँको चली जहाँ वे दोनों वृत्त गिर पड़े
 थे ॥ २५ ॥ तहाँ उसने देखा, कि—कमरमें बँधी हुई रस्सीसे
 उलूखलके खँचता हुआ उसका छोटा बालक दोनों वृत्तोंके बीच
 में बैठा हुआ है ॥ २६ ॥ उस गोपीने और वृद्ध गोपने व्रजमें
 यह बात कह दी, तब वे सब गोपोंमें हुई इस अद्भुत बातको

जन्तुपुत्रे यथाकामं गोपा वनविचारिणः । केनेमौ पातितौ
 वृत्तौ घोपस्यायतनोपमौ ॥ २८ ॥ विना वातं विना वर्षं त्रिभु-
 त्पतनं विना । विना हस्तिकृतं दोषं केनेमौ पातितौ द्रुमौ २९
 अहो वन न शोभेतां विमृत्तावर्जुनाविमौ । भूमौ निपततौ वृत्तौ
 वितोषौ जलदाविवायदीमौ घोपरन्तितौ घोपकन्याणकारिणौ ३०
 नन्दगोपप्रसन्नौ ते द्रुमावेवं गतावपि । यच्च ते दारको मुक्तो विपु-
 लाभ्यामपि क्षिती ॥ ३१ ॥ औत्पातिकमिदं घोपे वृतीयं वर्तते
 त्विह । पूतनाया विनाशश्च द्रुमयोः शकटस्य च ॥ ३२ ॥ अस्मिन्
 स्थाने च वासोऽयं घोपस्यास्य न युज्यते । उत्पाता ह्यत्र
 दृश्यन्ते कथयन्तौ न शोभनम् ॥ ३३ ॥ नन्दगोपस्तु सहसा

देखनेके लिये आने लगे ॥ २७ ॥ और वे वनविहारी गोप
 अपनी इच्छानुसार वातें करने लगे (एकने कहा, कि—)अरे !
 इन ग्रामके छत्रकी समान वृत्तोंके किसने गिरा दिया ॥ २८ ॥
 अरे ! इस समय तो अभी भी नहीं चल रही, वर्षा भी नहीं
 होरही थी, न कोई विजली गिरी थी और यहाँ पर तो हाथी
 भी नहीं लड़ रहे थे, फिर यह कैसे गिर पड़े, इन्हें किसने गिरा
 दिया ॥ २९ ॥ अरे! यह जड़से उखड़ कर पृथिवीमें गिरे हुए दोनों
 वृत्त पृथिवीमें पड़े हुए जल रहित मैयोंकी समान शोभा
 नहीं पाते हैं और निथ्यभ दीख रहे हैं, (गोपोंने कहा, कि)
 ये वृत्त घाँप (ग्राम) का कन्याण करनेके लिये लगाए गए
 थे ॥ ३० ॥ परन्तु हे नन्दगोप ! ये वृत्त इस दृश्यामें भी तुम पर
 प्रसन्न हैं, क्योंकि-इन बड़े भारी वृत्तोंके गिरने पर भी तुम्हारा
 पुत्र बाल २ बच गया ॥ ३१ ॥ इस ग्राममें यह तीसरा उत्पात
 हुआ है, पूतनाका विनाश हुआ और पेड़ गाड़ी टूट गए ३२ अत
 एव इस स्थानमें गोपोंका ग्राम बसना ठीक नहीं जँचता, क्योंकि-
 यहाँ रहना अच्छा नहीं है, इस बातको उत्पात (बराबर बता

पुनःत्वा कृष्णमुलूखलात् । निवेश्य चांके सुचिरं मृतं पुनरिवा-
गनम् ॥ ३४ ॥ नातृष्यत् मेक्ष्यमाख्यो वै कृष्णं कमललोचनम् ।
ततो यशोदा गर्हन् वै नन्दगोपो निवेश ह । स च गोपजनः
सर्वो व्रजमेव जगाम ह ॥ ३५ ॥ स च तेनैव नाम्ना तु कृष्णो
वै दामवन्धनात् । गोष्ठे दामोदर इति गोपीभिः परिगीयते ३६
एतदाश्चर्यभूतं हि बालस्थासीद्विचेष्टितम् । कृष्णस्य भरतश्रेष्ठ
घोषे निवसतस्तदा ॥ ३७ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि शिशुचर्यायां
यमलार्जुनभंगे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

गौशम्पायन उवाच । एवं तौ बाल्यपुत्तीर्णां कृष्णसंकर्षणा-
बुधौ । तस्मिन्नेव व्रजस्थाने सप्तवर्षां बभूवतुः ॥ १ ॥ नीलापीता-
म्बरधरौ पीतश्वेतानुलेपनौ । बभूवतुर्वत्सपालौ काकपत्तधराबुधौ २
रहे हैं ॥ ३३ ॥ इस समय नन्दगोपने श्रीकृष्णको जल्दीसे उलू-
खलसे खोल लिया और गोदमें बैठा लिया, फिर वह मरकर
पुनर्जीवित हुआकी समान कमलोचन श्रीकृष्णको बहुत समय
तक देख कर वृष न हुआ, फिर वह यशोदाकी निन्दा करते हुए
अपने घरको चले और सब गोप भी व्रजको चले गए ३४-३५
कृष्णको दाम (रस्सी)से बाँधा गया था अत एव गोपियें गोष्ठमें
उनको दामोदर नामसे पुकारती थीं ॥ ३६ ॥ हे भरतश्रेष्ठ !
श्रीकृष्णने ग्राममें निवास करते समय, बाल्यावस्थामें यह आश्चर्य-
जनक कर्म किया था ॥ ३७ ॥ सप्तम अध्याय ॥ ७ ॥ ❀

गौशम्पायनजीने कहा, कि-इसप्रकार (धीरे २) श्रीकृष्ण
और संकर्षणकी बाल्यावस्था पूर्ण होगई और वे व्रजमें ही सात
वर्षके होगए ॥ १ ॥ वे दोनों नीले और पीले वस्त्रको
धारण करते थे और पीले तथा श्वेत चन्दनको लगाते थे फिर
वह काकपत्त धारण कर बहनोंकी रक्षा करने लगे ॥ २ ॥ उनका

पणचाद्यं श्रुतिसुखं वादयन्तौ वराननौ । शुशुभाते वनगतौ त्रि-
 श्लोपाविच पन्नगौ ॥३॥ मयूरांगदरुणौ तु पल्लवापीडधारिणौ ।
 वनमालाकुलस्कन्धौ द्रुमपोताचिवोद्गतौ । अरविन्दकृतोपीडौ
 रञ्जुमञ्जोपवीतिनौ । सशिम्यतुंउरुकरौ गोपवेणुपवादकौ ॥५॥
 वचिद्धसंतावन्योन्यं क्रीडमानौ कनित् क्वचित् । पर्णशय्यासु
 संसृप्तौ क्वचिन्नद्रांतरेक्षणौ ॥६॥ एव वत्सान् पालयन्तौ शोभ-
 यन्तौ महावनम् । चंचूर्पन्तौ रमन्तौ स्म किशोराविच चंचलौ ७
 अथ दामोदरः श्रीमान् संकूर्पणमुवाच ह । आर्य नास्मिन् वने
 शयं गोपालैः सह क्रीडितुम् ॥८॥ अचगीतमिदं सर्वगावाभ्यां

मुख परमसुन्दर था वह वनमें पणच (तोंवीकी बनी हुई
 वीन) भादिको बजा कर कानोंको सुख देते थे, और वजाते
 समय तीन शिर वाले सर्पोंकी समान शोभा पाते थे ॥३॥ उस
 समय वे मोरके परके कुण्डल, वना उनको कानोंमें पहर कर
 पत्तोंके मुकुटोंको धारण करते थे और उनका वक्तःस्थल वन
 मालाओंसे ढका रहता था, इस कारण वे उगे हुए नन्हें २ पौधों
 की समान दीखते थे ॥ ४ कभी वे कमलरुा मुकुट वना लेते थे
 और रस्सीका यज्ञोपवीत धारण कर लेते थे और झींका और
 तोम्बी हाथमें लेकर गोपोंकी वीन (मुरली) बजाने लगते थे ५
 कभी २ वे आपसमें हँसने लगते थे और कहीं कहीं वे क्रीड़ा
 करने लगते थे और कभी आँखोंमें नींद भर जानेसे पत्तोंकी शय्या
 पर सोजाते थे ॥ ६ ॥ इस प्रकार वे बछड़ोंकी रक्षा करते हुए
 वनकी शोभा बढ़ाते फिरते थे और चञ्चल अश्वशावकोंकी
 समान वनमें बड़ी क्रीड़ा करते थे ॥ ७ ॥ कुछ समयके अनन्तर
 श्रीमान् दामोदरने बलरामजीसे कहा, कि हे आर्य । अब इस
 वनमें गोपोंके साथ क्रीड़ा करना अशक्य (व्यर्थ) है ॥ ८ ॥
 क्यों हमने इस वनको अनेक बार देख लिया है और इस वनकी

धुक्तकाननम् । गन्तीणतृणकाष्ठं च गोपैर्मथितपादेषु ॥ ६ ॥
 घनीभूतानि यान्यासन् काननानि वनानि च । तान्याकाश-
 निकाशानि दृश्यन्तेऽथ यथासुखम् ॥ १० ॥ गोवाटेष्वपि ये वृक्षाः
 परिवृत्तार्गलेषु च । सर्वे गोष्ठाग्निषु गताः क्षयपक्षधवर्चसः ११
 संनिकृष्टानि यान्यासन् काष्ठानि च वृणानि च । तानि दूराव-
 कृष्टासु मार्गितव्यानि भूमिषु ॥ १२ ॥ अरण्यमिदमन्वोदमन्व-
 क्तं निराश्रयम् । अन्वेपितव्यं विश्रामं दारुणं विरलद्रुमम् १३
 अकर्मण्येषु वृक्षेषु स्थितविप्रस्थितदिग्जम् । संवासस्यास्य गहतो
 जने नोत्सादितद्रुमम् ॥ १४ ॥ निरानन्दं निरास्वादं निष्पयोजन-
 यद्वह भोगा है गोपौने इसके वृण काष्ठ और वृत्तोंको तोड़ परोड़
 डाला है ॥ ६ ॥ यहाँ पर जो बहुतसे वन और नगीचे थे वे सब
 आकाशकी समान (पत्रपुष्परहित) दीखने हैं उनको देखनेसे अब
 सुख नहीं होता १० गोवाटों, गोलाकारवनी हुई कुण्डी (काटक)
 वाले गौँडोंके अक्षय वर्चस वाले वृक्ष गोठोंकी अग्निमें पड़कर
 समाप्त होगये है ॥ ११ ॥ सभीपमें जैसे काष्ठ और वृण थे वैसे
 वृणादि को कहीं दूर जाकर भूमियोंमें देखना चाहिये ॥ १२ ॥
 इस वनमें जल भी कम रह गया है इसमें लताएँ कम रह गई
 हैं अतः इसमें आश्रय नहीं मिलना है अब एव यह प्रदेश दारुण
 होगया है और यहाँ पर विश्राम करनेके लिये खोजनेपर कोई
 विरला ही वृक्ष मिल जाता है ॥ १३ ॥ यहाँके वृक्ष अकर्मण्य
 होगए हैं अर्थात् न फल देतेहैं न पत्ते आदिसे विश्राम करने देते
 हैं अत एव यहाँ पर रहने वाले पक्षी भागएए हैं इस बड़े भारी
 ग्रामके मनुष्योंने यहाँके वृत्तोंको नष्ट कर डाला है ॥ १४ ॥ अत
 एव यह आनन्दरहित होगया और यहाँ पर (फलोंका) अस्वाद
 मिलना भी कठिन होगया है और यहाँ पवनका चलना भी
 (फल पुष्प और पत्तोंके न होनेसे) निष्कल जाता है तथा

मास्तम् । निर्विहंगमिदं शून्यं निर्व्यजनमिवाशनम् ॥ १५ ॥
 विक्रीयमाणैः काष्ठैश्च शार्करच वनसंभवैः । उच्छन्नसंचयतृणै-
 र्घोषोऽयं नगरायते ॥ १६ ॥ शैलानां भूषणं घोषो घोषाणां भूषणं
 वनम् । वनानां भूषणं गावस्तारचास्माकं परा गतिः ॥ १७ ॥
 तस्मादन्यद्वनं यामः प्रत्यग्रयवसेन्धनम् । इच्छन्त्यनुपभुक्तानि गावो
 भोक्तुं तृणानि च ॥ १८ ॥ तस्माद्वनं नवतृणो गच्छन्तु धनिनो
 ब्रजाः । न द्वारवन्धावरणा न ग्रहक्षेत्रिणस्तथा । प्रशस्ता वै ब्रजा
 लोके यथा वै चक्रधारिणः ॥ १९ ॥ शकृन्मूत्रेषु तेष्वेव जातत्तार-
 रसायनम् । न तृणं भुञ्जते गावो नापि तत्प्रयसे हितम् ॥ २० ॥
 स्थलीमायासु रथ्यासु नवासु वनराजिषु । चरावः सहिता गोभिः

यहाँ परसे पत्ती भी भाग गए हैं, अत एव यह शून्य पड़ा हुआ
 वन शार्करहित भोजनकी समान जँचना है ॥ १५ ॥ यहाँ पर
 के काष्ठ और वनके शाक वेच दिये जाते हैं अत एव तृणोंके ढेर
 (आदि) से रहित यह वन नगरकी समान होगया है ॥ १६ ॥
 पर्वतोंकी शोभा घोष (आभीरोंके ग्रामों) से होती है और
 घोषोंकी शोभा वनसे होती है और वनोंकी शोभा गौओंसे होती
 है, वे गौए ही हमारी परा गति है १७ इस लिये हम किसी
 दूसरे जाँ और सँभे वाले ग्राममें चले, क्योंकि-गौए भी पहिले
 न खाये हुए तृणोंको ही खाना चाहती हैं ? १८ इस लिये धनी
 ब्रजवासी नये २ तिनुकेबाले किसी ग्राममें चलें, ब्रज चक्र बाँध
 कर फिरने वाले हंस आदिकी समान घर द्वार और खेत रहित
 अच्छे नहीं माने जाते १९ जब तृणों पर गोबर और मूत्र पड़
 जाता है तो गौए उनको खाना नहीं चाहती हैं और वह भी चार
 होनेसे रसायन होजाती है और वह दूधके लिये भी हितकारी
 नहीं होता है २० आज कल हम (तृणरहित होनेके कारण)
 स्थलसी बनी हुई गलियोंमें और नई २ वनराजियोंमें गौओंके

क्षिप्तं, संवाहतां व्रजः ॥ २१ ॥ श्रयते हि व्रजं रम्यं पर्याप्तं वृष-
सञ्चरम् । नाम्ना वृन्दावनं नम स्वादुवृत्तफलोदकम् ॥ २२ ॥
अभिल्लिकण्टकवनं सर्वैर्वनगुणैर्षुतम् । कदम्बपादपमायं यमुना-
तीरसंश्रितम् ॥ २३ ॥ सिन्धुशीतानिलवनं सर्वतु निलयं शुभम् ।
गोपीनां सुखसंचारं चारु चित्रवनान्तरम् ॥ २४ ॥ तत्र गोवर्धने
नाम नातिदूरे गिरिर्महान् । भ्रान्ते दीर्घशिखरो, नन्दनस्येव
मन्दरः ॥ २५ ॥ मध्ये चास्य महाशाखो, न्यग्रोधो योजनोच्छ्रितः ।
भाण्डीरो नाम शुशुभे नीलमेघ इवाम्बरे ॥ २६ ॥ मध्येन चास्य
कालिन्दी सीमन्तमिव कुर्वती । प्रयाता नन्दनस्येव नलिनी सरि-
साम्बरा ॥ २७ ॥ तत्र गोवर्धनं चैव भाण्डीरं च वनस्पतिम् ।

साथ घूमते रहते हैं, अतः शीघ्रही व्रजको यहाँसे उठाना चाहिये २१
हमने सुना है, कि-वृन्दावन नामक वन बड़ा रमणीक है उसमें
घास भी बहुत है और तहाँके वृत्तोंके फल और जल बड़े मीठे
होते हैं २२ उस वनमें भिल्लिक (वनकी एक प्रकारकी मकली)
और कण्टि नहीं है और उसमें वनके सब गुण विराजमान हैं
और उसमें कदम्बके पेड़ अधिक हैं तथा वह यमुनातट पर बसा
हुआ है २३ वह वन सिन्धु है और उसमें शीतल पवन चलता
है और वह सब ऋतुओंका घर है और उस शुभ वनमें गोपियों
भली भाँति विचरण कर सकती हैं और उसमें छोटे २ रमणीय
वाग लम रहे हैं २४ तहाँसे थोड़ी दूर कर गोवर्धन नामक बड़ा
भारी पर्वत है उसका शिखर बहुत ऊँचा है, इससे वह नन्दन-
वनके मेरुपर्वतकी समान मतीत होता है ॥ २५ ॥ इसके
मध्यमें बड़ी भारी शाखाओंवाला बट वृत्त है वह योजन
भर ऊँचा है उसका नाम भाण्डीर है और वह आकाशमें नील
मेघकी समान शोभा दे रहा है ॥ २६ ॥ जैसे नदियोंमें श्रेष्ठ नन्दन
वनके पास नलिनी नदी बहती है तैसे उसके मध्यमें उसका केश

कालिन्दी च नदी रम्यां व्रज्यावधरतः सुखम् ॥ २८ ॥ तत्रायं
 कल्प्यतां घोषस्त्यज्यतां निर्गुणं वनम् । । सन्त्रासयाचो भद्रन्ते
 किञ्चिदुत्पाद्य कारणम् ॥ २९ ॥ एवं कथयतस्तस्य वासुदेवस्य
 धीमतः । प्रादुर्बभूवुः शतशो रक्तमांसवसाशनाः ॥ ३० ॥ घोरा-
 श्चिन्तयतस्य स्वतमूरुहजास्तदा । विनिष्येतुर्भयकराः सर्वशः
 शतशो वृकाः ३१ निष्यतन्ति स्म बहवो व्रजस्योत्सादनाय वै ।
 वृकान्निष्पतितान् दृष्ट्वा गोषु वत्सेष्वथो नृषु ॥ ३२ ॥ गोपीषु च
 यथाकामं व्रजे त्रासोऽभवन्महान् । ते वृकाः पञ्चवद्धाश्च दश-
 चद्धास्तथाऽपरे ॥ ३३ ॥ त्रिंशद्विंशतिवद्धाम्च शतवद्धास्तथा
 परे । निश्चेष्टस्य गात्रेभ्यः श्रीवत्सकृतलक्षणाः ॥ ३४ ॥
 कृष्णस्य कृष्णवदना गोपानां भयवर्द्धनाः । भक्तयद्भिश्च तैर्ब-

बंधनसा करती हुई कालिन्दी नदी बहती है ॥ २७ ॥ तहाँ हम
 दोनों गोवर्धन पर्वत भाण्डीर नामक वट और कालिन्दी नामकी
 रमणीय नदीको देखते हुए सुखपूर्वक विचरण करेंगे ॥ २८ ॥
 तहाँ अपना ग्राम वसाना चाहिये और इस स्थलको छोड़ देना
 चाहिये और इस निर्गुण वनको त्यागदेना चाहिये आपका
 कल्याण हो, अब किसी बातको उत्पन्न कर ग्रामवासियोंको
 डराना चाहिये २९ बुद्धिमान् वासुदेव इस प्रकार कह रहे थे,
 कि-उनके शरीरमेंसे रक्त मांस और वसाका भोजन करने वाले
 सैकड़ों (प्राणी) उत्पन्न होगए ३० वह जब यह विचार कर
 रहे थे उस समय उनके केशोंमेंसे भय देने वाले सैकड़ों भेड़िये
 उत्पन्न होगए ३१ वे बहुतसे भेड़िये व्रजका उत्सादन करनेके
 लिये उत्पन्न हुए ये बृकोंको फैलते देख कर गौ वत्स मनुष्य और
 गोपियोंमें बड़ा भारी त्रास फैल गया श्रीवत्सके चिन्हों वाले
 बृक श्रीकृष्णके शरीरमेंसे पाँच २ दश २ तीस २ और सौ २
 इकठ्ठे होकर निकलने लगे ॥ ३२-३४ ॥ वे काले मुख वाले

त्सान् त्रासयद्भिरच गोव्रजान् ॥ ३५ ॥ निशि बालान् हरद्भिरच
 वृकैरुत्साद्यते व्रजः । न वने शक्यते गन्तुं न गाश्च परिरक्षि-
 तुम् ॥ ३६ ॥ न वनात् किञ्चिदादृतुं न चानतरितुं नदीम् ।
 त्रस्ता ह्यद्विग्नमनसो गतास्तस्मिन् वने वसन् ॥ ३७ ॥ एवं वृकै-
 रदीर्यस्तु व्याघ्रतुल्यपराक्रमः । व्रजो निस्पन्दचेष्टः स एकस्थान-
 चरः कृतः ॥ ३८ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवशो विष्णुपर्वणि शिशुनर्यायां
 वृकदर्शना नामोष्ठमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

वैशम्पायन उवाच । एवं वृकाश्च तान् दृष्ट्वा वर्धमानान् दुरा-
 सदान् । सस्त्रीपुमान् स घोषो वै समस्तोऽमन्त्रपत्तदा ॥ १ ॥
 स्थाने नेह नः कार्यं व्रजामोऽन्यन्महद्गनम् । यच्छिवं च सुखोष्णं
 च गवां चैव सुखावहम् ॥ २ ॥ अथैव हि विरेण स्म व्रजामः

भेड़िये श्रीकृष्णके शरीरमेंसे निकल कर गोपोंको भयभीत करने
 लगे वे बड़ड़ोंका भक्षण करके गोत्रजोंको त्रस्त करने लगे ३५
 और रात्रिमें बालकोंको उठा कर लेजाने लगे, इस प्रकार व्रज
 पीड़ित होने लगा, गोपोंमें वनको जानेकी और गौओंकी रक्षा
 करनेकी भी शक्ति न रही ३६ उनमेंसे किसी वस्तुको लानेकी
 वा नदीमें तैरनेकी भी शक्ति न रही और वे त्रस्त हो मनमें
 घबडाते हुए उस वनमें वसते रहे ३७ व्याघ्रोंने व्याघ्रकी समान
 पराक्रम करने वाले बलवान् व्रजकों इस प्रकार निस्पन्द कर
 दिया और व्रजवासी एक ही स्थानमें बन्द होगए ३८ अष्टम
 अध्याय समाप्त ८

वैशम्पायनजीने कहा, कि—उन दुरासद भेड़ियोंको उठते देख
 कर उस घोषके समस्त स्त्री पुरुष विचारने लगे ॥१॥ अब इस
 स्थानसे हमें कुछ काम नहीं है, अब तो उस दूसरे वनमें चलना
 चाहिये जहाँ पर सुखपूर्वक रहा जासके जो गौओंको सुख देय

सह गोधनैः । यावद् वृकैर्वधे घोरे न नः सर्वा व्रजो व्रजेत् ॥२॥
 एषां धूम्राख्याङ्गानां दष्टिणां नखकपिणाम् । वृकाणां कृष्ण-
 वक्राणां विभीमो निशि गर्जताम् ॥ ४ ॥ मम पुत्रो मम भ्राता
 मम वत्सोऽथ गौर्मम । वृकैर्व्यापादिता श्रेवं क्रन्दन्ति स्म गृहे गृहेऽ
 तासां रुदितशब्देन गवां हंभारवेण च । व्रजस्योत्थापनं चक्रु-
 र्योषवृद्धाः समागताः ॥ ६ ॥ तेषां मतमथाज्ञाय गन्तुं वृन्दावनं
 प्रति । व्रजस्य विनिवेशाय गवां चैव हिताय च ॥ ७ ॥
 वृन्दावननिवासाय तान् ज्ञात्वा कृतनिरचयान् । नन्दगोपो वृह-
 द्वाक्यं वृहस्पतिरिवादधे ॥८॥ अथैव निरचयप्राप्तिर्यदि गन्तव्य-
 येव नः । शीघ्रमाज्ञाप्यतां घोषः सज्जी भवत मा चिरम् ॥ ९ ॥

और मङ्गलदाता हो ॥ २ ॥ अब अधिक देर करनेसे, क्या? हम
 आज ही अपने २ गोधनको लेकर चलेंगे, क्यकि-सब व्रजके
 मारे जानेसे पहिले ही चलना च हिये ॥ ३ ॥ हम इन धुमैले
 और अरुण अङ्ग और डाढ़ूवाले तथा नाखूनसे खींचने वाले
 और काले मुख वाले भेड़ियोंको रातमें गुराते सुन कर डर जाते
 हैं ॥ ४ ॥ और घर घरमें इस प्रकार रोते रहते है, कि-हाय !
 भेड़ियोंने मेरे पुत्रको मार डाला ! हाय भेड़ियोंने मेरे माईको
 मार डाला और हाय ! भेड़ियेने मेरे बड़डे और मेरी गौको
 मार डाला ! ॥ ५ ॥ अत एव हे उपस्थित वृद्ध घोषों (गोषों!)
 इनके रोनेके शब्द पर और गौओंके हम्भा २ करके डकरानेके
 शब्द पर लक्ष्य देकर व्रजमें उठानेकी अनुपति दीजिये ॥६॥
 अपनी प्रजाके वृन्दावनकी ओर पयान करनेके मतको जानकर
 और यह देख कर कि-बह गौओंका हिन करनेके लिये व्रजको
 वृन्दावनमें जाकर बसानेका निश्चय कर चुकी हैं, वृहस्पतिकी
 समान (बुद्धिमान)नन्दगोपने प्रजाओंकी बातको स्वीकार कर
 लिया ॥ ७ ॥ ८ ॥ उन्होंने कहा, कि-हमें तहाँ चलना ही है

ततोऽत्रघुष्यत तदा घोषे तत्माकृतैर्जनैः । शीघ्रं भावः प्रकल्पयन्तां
 भायदं समभिरोष्यताम् ॥ १० ॥ वत्सयूथानि कान्यन्तां घुज्यन्तां
 शकटानि च । वृन्दावनमितः स्थानान्निवेशाय च गम्यताम् ११
 तच्छ्रुत्वा नन्दगोपस्य वचनं साधु भाषितम् । उदतिष्ठद्ब्रजः सर्वः
 शीघ्रं गमनलालसः ॥१२॥ मयाद्यत्तिष्ठ मच्छामः किं शोषे साधु
 योजय । उत्तिष्ठति ब्रजे तस्मिन्नासीत् कोलाहलो महान् ॥१३॥
 उत्तिष्ठमानः शुशुभे शकटीशाकटस्तु सः । व्याघ्रघोषमहाघोषो
 घोषः सागरघोषवान् ॥१४॥ गोपीनां गर्गरीभिश्च मूर्ध्नि चोत्तं-
 पितैर्वटैः । निष्पयात् ब्रजात् पंक्तिस्तारापंक्तिरिवास्वरात् १५
 नीलपीतारुणैस्तासां वस्त्रैरग्रस्तनोच्छ्रितैः । शक्रचापायते पंक्ति-

अत एव आजकी बात पक्की रही, अब घोषमें शीघ्र ही इस
 बातकी आज्ञा देनी चाहिये, कि—बहुत शीघ्र तयार होमाओ ६
 तब प्रकृति मण्डलके पुरुषोंने घोषमें डौड़ी पिटवा दी, कि—शीघ्र
 ही अपनी २ गौओंको ठीक कर लो और (छरुड़ोंमें) अपने २
 पात्र (भरलो) ॥ १० ॥ अब बद्धुड़ोंको निकाल कर बाहर खड़े
 करो और अपने २ शकटोंको जोड़ो और यहाँसे वृन्दावनमें
 बसनेके लिये चलो ॥११॥ नन्दगोपके उस सज्जनोचित भाषण
 को सुनकर शीघ्र ही चलनेको उत्कण्ठित सब ब्रज उठ खड़ा
 हुआ और मस्थान करो उठो चलो अब दाकी क्या रह गया
 अब (छरुड़ोंको) जोड़ो इस प्रकार ब्रजके उठते समय बड़ा
 भारी कोलाहल होने लगा ॥ १३ ॥ गाड़ी शकटोंसे भरा हुआ
 वह घोष (आभीरग्राम) सागर और व्याघ्रके महाघोषकी समान
 घोष करता हुआ उठ खड़ा हुआ ॥१४॥ जिस समय ब्रजमेंसे
 शिर पर गागर रखे हुए गोपियोंकी लंघार चली तो ऐसा मतीत
 होता था, कि—मानो आकाशमेंसे तारोंकी लड़ी आरही है १५
 नीली पीली चोलियें पेहर कर मार्गमें गमन करती हुई गोपियों

सह गोधनैः । यावद् वृकैर्वधे घोरे न, नः सर्वो व्रजो व्रजेत् ॥ ३ ॥
 एषां धूम्राख्याङ्गानां दंष्ट्राणां नखकपिणाम् । वृकाणां कृष्ण-
 वक्राणां विभीमो निशि गर्जताम् ॥ ४ ॥ मम पुत्रो मम भ्राता
 मम वत्सोऽथ गौर्मम । वृकैर्व्यापादिता स्त्रेवं क्रन्दन्ति स्म गृहे गृहे
 तासां रुदितशब्देन गवां हंभारवेण च । व्रजस्योत्थापनं चक्रु-
 र्योषवृद्धाः समागताः ॥ ६ ॥ तेषां मतपथाज्ञाय गन्तुं वृन्दावनं
 प्रति । व्रजस्य विनिवेशाय गवां चैव हिताय च ॥ ७ ॥
 वृन्दावननिवासाय तान् ज्ञात्वा कृतनिश्चयान् । नन्दगोपो वृह-
 द्वाक्यं वृहस्पतिरिवावधे ॥ ८ ॥ अथैव निश्चयप्राप्तियदि गन्तव्य-
 मेव नः । शीघ्रप्राज्ञाप्यतां घोषः सज्जी भवत मा चिरम् ॥ ९ ॥

और मङ्गलदाना हो ॥ २ ॥ अब अधिक देर करनेसे, क्या? हम
 आज ही अपने २ गोधनको लेकर चलेंगे, क्यकि-सब व्रजके
 मारे जानेसे पहिले ही चलना च हिये ॥ ३ ॥ हम इन धुमैले
 और अरुण अङ्ग और डाढ़ वाले तथा नाखूनोंसे खींचने वाले
 और काले मुख वाले भेड़ियोंको रातमें गुराते सुन कर डर जाते
 हैं ॥ ४ ॥ और घर घरमें इस प्रकार रोते रहते हैं, कि-हाय !
 भेड़ियोंने मेरे पुत्रको मार डाला ! हाय भेड़ियोंने मेरे माईको
 मार डाला और हाय ! भेड़ियेने मेरे बड़डे और मेरी गौको
 मार डाला ! ॥ ५ ॥ अत एव हे उपस्थित वृद्ध घोषों (गोषों!)
 इनके रोनेके शब्द पर और गौओंके हम्भा २ करके डकरानेके
 शब्द पर लक्ष्य देकर व्रजको उठानेकी अनुपति दीजिये ॥ ६ ॥
 अपनी प्रजाके वृन्दावनकी ओर पयान करनेके मतको जानकर
 और यह देख कर कि-वह गौओंका हिन करनेके लिये व्रजको
 वृन्दावनमें जाकर बसानेका निश्चय कर चुकी हैं, वृहस्पतिकी
 समान (वृद्धिमान)नन्दगोपने प्रजाओंकी बातको स्वीकार कर
 लिया ॥ ७ ॥ ८ ॥ उन्होंने कहा, कि-हमें तहाँ चलना ही है

ततोऽवघुष्यत तदा घोषे तत्प्राकृतैर्जनैः । शीघ्रं भावः प्रकल्प्यन्तां
 भाण्डं समभिरोष्यताम् ॥ १० ॥ वत्सगूथानि कान्यन्तां घुञ्जन्तां
 शकटानि च । वृन्दावनमितः स्थानान्निवेशाय च गम्यताम् ११
 तच्छ्रुत्वा नन्दगोपस्य वचनं साधु भाषितम् । उदतिष्ठद्ब्रजः सर्वः
 शीघ्रं गमनत्पालसः ॥१२॥ मयावृत्तिष्ठ गच्छामः किं घोषे साधु
 योजय । उत्तिष्ठति ब्रजे तस्मिन्नासीत् कोलाहलो महान् ॥१३॥
 उत्तिष्ठमानः शुशुभे शकटीशाकटस्तु सः । व्याघ्रघोषमहाघोषो
 घोषः सागरघोषवान् ॥१४॥ गोपीनां गर्गरीभिश्च मूर्ध्नि चोत्तं-
 पितैर्वटैः । निष्पयात ब्रजात् पंक्तिस्तारापंक्तिरिवास्वरात् १५
 नीलीपीतारुणैस्तासां वस्त्रैरग्रस्तनोच्छ्रितैः । शक्रचापायते पंक्ति-

अत एव आगकी बात पक्की रही, अब घोषमें शीघ्र ही इस
 बातकी आज्ञा देनी चाहिये, कि-बहुत शीघ्र तयार हो जाओ ६
 तब प्रकृति मण्डलके पुरुषोंने घोषमें डौंडी पिटवा दी, कि-शीघ्र
 ही अपनी २ गौओंको ठीक कर लो और (लकड़ोंमें) अपने २
 पात्र (भरलो) ॥ १० ॥ अब बल्लडोंको निकाल कर बाहर खड़े
 करो और अपने २ शकटोंको जोड़ो और यहाँसे वृन्दावनमें
 बसनेके लिये चलो ॥११॥ नन्दगोपके उस सज्जनोचित भाषण
 को सुनकर शीघ्र ही चलनेको उत्कण्ठित सब ब्रज उठ खड़ा
 हुआ और मस्थान करो उठो चलो अब बाकी क्या रह गया
 अब (लकड़ोंको) जोड़ो इस प्रकार ब्रजके उठते समय बड़ा
 भारी कोलाहल होने लगा ॥ १३ ॥ गाड़ी शकटोंसे भरा हुआ
 वह घोष (आभीरघ्राण) सागर और व्याघ्रके महाघोषकी समान
 घोष करता हुआ उठ खड़ा हुआ ॥१४॥ जिस समय ब्रजमेंसे
 शिर पर गागर रखे हुए गोपियोंकी लंघार चली तो ऐसा प्रतीत
 होता था, कि-मानो आकाशमेंसे तारोंकी लड़ी आरही है १५
 नीली पीली चोलियें पहर कर मार्गमें गमन करती हुई गोपियों

गोपीनां मार्गमामिनी ॥ १६ ॥- दामिनीदामभारैश्च कैश्चित्
 क्रायावलंबिभिः । गोपा मार्गगता भान्ति सावरोहा इव द्रुमाः १७
 स व्रजो व्रजता भाति शकटौघेन भास्वता । पोतैः पवननिक्षिप्तै-
 निष्पतद्भिर्विचार्युवः ॥ १८ ॥ -क्षणेन तद्व्रजस्थानमीरणं सम-
 पद्यत । द्रव्यावयवनिर्धूतं कीर्णं वायसमण्डलैः ॥ १९ ॥ ततः
 क्रमेण घोपः स प्राप्तो वृन्दावनं वनम् । निवेशं विपुलं चक्रे गवां
 चैव हिताय च ॥ २० ॥ शकटावर्तपर्यन्तं चन्द्रार्धाकारसंस्थि-
 तम् । मध्ये योजनविस्तीर्णं तावद् द्विगुणमायतम् ॥ २१ ॥ कंट-
 कीभिः प्रवृद्धाभिस्तथा कंटकितद्रुमैः । निखातोच्छ्रितशाखाग्रैरभि-
 गुप्तं समन्ततः ॥ २२ ॥ मन्थैरारोप्यमाणैश्च मन्थवन्धानुर्कपर्णैः
 अद्भिः प्रक्षाल्यमानाभिर्गर्गरीभिः समन्ततः ॥ २३ ॥ कीलैरा-

की पंक्ति इन्द्रधनुषकी समान प्रतीत होती थी ॥१६॥ रस्सीका
 चोभ शिर पर रख कर लेजाते हुए गोपोंकी रस्सियें नीचेको
 लटक रही थीं, इससे वह (वेल चढ़े हुए) वृत्तोंकी समान प्रतीत
 होते थे ॥ १७ ॥ भास्वर शकटोंमें चलता हुआ व्रज, समुद्रमें
 चायुकी टक्करसे बढ़ते हुए पोतोंकी समान दीखता था ॥ १८ ॥
 क्षण भरमें ही वह स्थान उजाड़ होगया तहाँ पर पदार्थोंके टुकड़े
 पड़े हुए दीखने लगे और तहाँ कौए बैठने लगे ॥१९॥ क्रमशः
 वह घोप वृन्दावनमें पहुँच गया और तहाँ पर अपने और
 गौओंके हितके लिये उसने पडाव डाल दिया ॥ २० ॥ तहाँ पर
 खड़े हुए शकट आधे चन्द्रमाके आकारमें खड़े हुए थे उसका
 मध्यभाग चार कोसका था और लम्बाई आठ कोसकी थी २१
 तहाँ पर बड़ी २ कण्टकी (कण्टाई) लग रही और कांटेदार
 पेड लग रहे थे और खाइयोंमें लगे हुए कांटेदार वृत्तोंकी
 शाखाएँ उस स्थलकी चारों ओरसे रक्षा कर रही थीं- ॥२२॥
 तहाँ पर (गोप) अपनी रइपोंको लगाने लगे और रईकी

रोप्यमाणैश्च दामनीपाशपाशितैः । स्तम्भनीभिर्धृताभिश्च शरटैः
 परिवर्ततैः ॥ २४ ॥ नियोगपाशीरासक्तैर्गर्गरीस्तंभमूर्धसु । द्वाद-
 नार्थं प्रकीर्णैश्च कटकैस्तृणसंकटैः ॥ २५ ॥ शाखाविटंकेर्बृजाणां
 क्रियमाणैरितस्तनः । शोभ्यमानैर्गर्वा स्थानैः स्थाप्यमानैरुलू-
 खलैः ॥ २६ ॥ प्राङ्मुखैः सिच्यमानैश्च संदीप्यद्भिश्च पात्रकैः ।
 सवत्सवर्मास्तरणैः पर्यकैश्चावरोपितैः ॥ २७ ॥ तोयमुत्तारयंतीभिः
 प्रेक्षणीभिश्च तद्गनम् । शाखाश्चाकर्षमाणानिर्गोपीभिश्च सम-
 नतः ॥ २८ ॥ युतभिः स्थविरैश्चैव गोपैर्व्यग्ररुर्मृशम् । विश-
 सद्भिः कुठारैश्च काष्ठान्यपि तरुनपि ॥ २९ ॥ तद् वनस्थान-
 मधिकं शुशुभे काननावृतम् । रम्यं वननिवेशं वै स्वादुमूलफलो-
 दकम् ॥ ३० ॥ ताम्बु कामदुया गावः सर्वपत्तिरुत्तं वनम् । वृंदा-
 रस्सिर्गोको रखने लगे ॥ २३ ॥ श्रीर वे रस्सी बाँध कर (रईको)
 रोकने वाली कीलोंको गाड़ने लगे और अपनी गाड़ियोंको
 फिरा कर खड़ी करने लगे ॥ २४ ॥ उस समय गोप गागरमें
 पड़ी हुई रइयोंको बाँधनेके लिये रस्सी ढूँढ रहे थे और झीके लगा
 रहे थे और एडुआँसे घड़ोंको ढ़क रहे थे ॥ २५ ॥ और वे वृत्तों
 में पत्तियोंके बैठनेके लिये इधर उधर घोंसले वा उनके बैठनेके
 लिये लटकते हुए तिनुकोंके झीके बना रहे थे ॥ २६ ॥ वे पूर्व
 की ओर मुख करके जल चढ़ा रहे थे और अपनी २ अग्निर्गो तो
 प्रदीप्त कर रहे थे और वे अपने २ पल्लों पर चमड़ेके धिञ्जोने
 बिज्रा रहे थे ॥ २७ ॥ तहाँ गोपियें जल लाते समय चारों ओर
 से वनको देखती हुई चली आती थीं और कहीं २ शाखाओंको
 पकड़ कर खेंचने लगती थीं ॥ २८ ॥ उम समय बुड़े और तरुण
 गोप अपने हाथोंको शीघ्रतासे चला कर कुठारोंसे वृत्त और भाङ्ग
 भँकाड़ोंको काट रहे थे ॥ २९ ॥ तब वह वनसे घिरा हुआ
 वनस्थान पड़ाव पड़ने पर स्वादु मूल फल और उदक वाला

वनमनुगाप्ता नन्दनोपमकाननम् ॥३१॥ पूर्वमेव तु कृष्णेन गवां
 वै हिनकारिणा । शिवेन मनसा दृष्टं तदनं वनचारिणा ॥३२॥
 पश्चिमे तु तनो रुद्धे घर्ममासे निरामये । वर्षतीवामृतं देवे तृणं
 तत्र व्ययर्धत ॥ ३३ ॥ न तत्र वत्साः सीदन्ति न गावो नेतरे
 जनः । यत्र तिष्ठति लोहानां भवाय मधुमूदनः ॥ ३४ ॥ वाश्च
 गावः स घोषस्तु स च संकर्षणो युवा । कृष्णेन विहितं वासं
 तमध्यासंन निर्घृताः ॥ ३५ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि वृन्दावन-
 प्रवेशो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

वैशम्पायन उवाच । तौ तु वृन्दावनं प्राप्ता वसुदेवसुताबुभौ ।
 चैरत्तुर्वत्सयुधानि चारयन्तौ सुरूपिणीं ॥ १ ॥ पूर्णस्तु घर्मसम-
 यस्तयोस्तत्र वने सुखम् । क्रीडतोः सह गोपालैर्यमुनां चावगा-

होनेमे परम शोभा पाने लगा ॥ ३० ॥ वे कामधेनु गौएँ सब
 पत्तियोंके शब्दोंसे गुञ्जरित वृन्दावन नामक नन्दनवनकी समान
 वनमें आ पहुँचीं ॥ ३१ ॥ गौओंके हिन करने वाले वनचारी
 श्रीकृष्णने अपने शुभ मनमें पहिले ही इस वनको देख रक्खा
 था ३२ जब वर्षा ऋतुका पश्चिम (अंतिम) भास आया तब
 देवराजने इन्द्रने अमृतकी सगान वर्षा की उससे घास बढ़ गई ३३
 संसारका कल्याण करनेके लिये श्रीकृष्ण जहाँ रहते थे तहाँ पर
 न वत्स दुःख पाते थे और न गौएँ दुःख पाती थीं ॥ ३४ ॥
 कृष्णके सोचे हुए उम स्थानमें गौएँ घोप और युवा संकर्षण
 आनन्दपूर्वक रहने लगे ॥ ३५ ॥ नवम अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥

वैशम्पायनजीने कहा कि वे रूपवान् वसुदेवजीके दोनों
 पुत्र वृन्दावनमें आकर बच्चड़ोंकी टोलियोंको चराते हुए फिरने
 लगे ॥ १ ॥ उन दोनोंने यमुनामें स्नान करते २ और गोपालोंके
 साथ क्रीड़ा करते २ सारी ग्रीष्मऋतु सुखपूर्वक वृन्दावनमें

हनोः ॥ २ ॥ ततः प्राट्टडनुगात्ता मनसः कामदीपिनी । प्रचवर्षु-
 महामेयाः शक्रचापाकितोदराः ॥ ३ ॥ वभूवादर्शनः सूर्यो भूमि-
 रचादर्शना वृणैः । महता मेघरातेन नवतोयानुवर्षिणा ॥ ४ ॥
 संगानिततला भूमिर्गोवनस्थेन लक्ष्मते । नाशितं जलदैर्हृण्यं
 तोपिता वसुधा जलैः ॥ ५ ॥ नववर्षावसिक्तानि शक्रगोपकुलानि
 च । नष्टदावाग्निभूगानि वनानि प्रचक्राशिरे ॥ ६ ॥ नृत्यव्यापार-
 कालश्च मयूराणां कलापिनाम् । गदरक्ताः प्रवृत्ताश्च केकाः
 पटुरवास्तथा ॥ ७ ॥ नवपावृषि कांतानां पट्टपदाहारदाविनाम् ।
 गोवनस्थकदम्बानां नवाभ्रैर्भ्रजते वपुः ॥ ८ ॥ हासितं कुटजै-
 र्वृक्षैः कदम्बैर्वासितं वनम् संतप्ताभास्करकरैरभितप्तादवाग्निभिः ६
 जलोर्वलाहकोत्सृष्टैरुच्छ्वसंतीव पर्ययाः ॥ ९ ॥ । महावातसदृहभूतं

विनादी ॥ २ ॥ तदनन्तर मनमें इच्छार्थको स्फुरित करने वाली
 वर्षा ऋतु आगई तब शक्रचाप (इन्द्रगनुप) से चिन्डित उदर
 वाले महामेय वर्षा करने लगे ॥ ३ ॥ तदनन्तर पीछे २ नये
 जलकी वर्षा करने वाले महामेयकी वायुसे सूर्य छिप गया और
 भूमि भी घाससे ढक गई ॥ ४ ॥ उस समय तल धुली हुई
 भूमि युवतीसी दीख रही थी, घेघोंने गरमीको मिटा दिया और
 जलसे पृथ्वीको वृष कर दिया ॥ ५ ॥ नवीन वर्षासे सिंचे हुए
 अत एव नष्ट हुई दावाग्निके धूम वाले वन और इन्द्रगोप
 (वीरवहूटी) नामक कीड़े दमकने लगे ६ उस समय चोटी वाले
 मयूरोंके नाचनेका समय आगया और पदसे रक्त हुए चतुरतासे
 शब्द करने वाले मयूर शब्द करने लगे अनवीन वर्षा ऋतुमें दमकने
 वाले और भौंरोंको आहार देने वाले तमण कदम्बोंसे बादलोंका
 शरीर शोभा देने लगा ८ सूर्यकी किरणोंसे झुजते हुए और
 दावाग्निसे भस्म हुए वनकी कुटज (कुरैआँ) के वृत्तोंने दमका
 दिया ६ और कदम्बके वृत्तोंने उस वनको गहका दिया भेघोंके द्वारा

महामेघगणार्पितम् । महीमहोराजपुरैश्चुन्यमापद्यते नभः ॥१०॥
 क्वचित्कदम्बहासाढ्यं शिलीघ्राभरणं क्वचित् । संदीप्तमिग-
 भाति फुल्लनीपद्रुमं वनम् ॥ ११ ॥ ऐन्द्रेण पयसा सितं गारु-
 तेन नवीकृतम् । पार्थिवं गन्धमाघ्राय लोकः क्षुभितमानसः १२
 दत्तसारंगनादेन दर्दुरव्याहतेन च । नवीश्च शिखिविकुट्टैरव-
 कीर्णा वसुन्धरा ॥ १३ ॥ भ्रमत्पूर्वमहावर्ता वर्षमाप्तमहारयाः ।
 हरन्त्यस्तीरगान् वृक्षान् विस्तारं यान्ति निम्नगाः ॥ १४ ॥
 सन्ततासारनिषेत्नाः क्लिन्नपत्नोत्तरच्छदाः । न त्यजन्ति नगा-
 ग्राणि श्रान्ता इव पत्रिणः ॥ १५ ॥ तोयगम्भीरलंबेषु स्ववत्सु
 च नदत्सु च । उदरेषु नवाभ्राणां गञ्जतीव दिवाकरः ॥१६॥
 परसाये हुये जलसे पर्वत (वाष्प निकलनेके कारण) श्वास लेते
 हुएसे दीखने लगे, महावातसे उड़ाया हुआ (यह पताकाओंका
 बणन है) और महामेघ (रूप प्रासादों) को धारण करनेवाला
 आकाश पृथ्वीके महागर्जोंके नगरोंकी समान दीखना था १०
 कहीं पर कदम्बोंके हास्योंका धनी और कहीं पर छत्राकोंको धारण
 करने वाला और खिले हुए अशोकवाला वन दिपता हुआ दीख
 रहा था ११ इन्द्रके जलसे सींचे हुए और जल न द्वारा नवीन
 किये हुए पार्थिवगंघको सूँधकर संसारका मन क्षुब्ध होगया
 अर्थात् कामातुर होने लगा १२ मत्त भ्रमरोंके नादसे और मेंडकोंके
 टरानेसे और नवीन मोरोंके गर्जनेसे वसुन्धरा भ्रम गई ॥ १३ ॥
 शीघ्रभ्रमरके आवर्तन वाली और वर्षाहोनेसे वेगवान् वनी हुई
 तथा नदों परके वृक्षोंके उखाड़ने वाली महानदियों फैलने लगी १४
 निम्नगा धारा पड़नेसे नद हुए पेड़ कि-निनकी छाल भीग गई
 भी वे अपनी डालोंको भङ्गे हुए पत्तियोंकी समान नहीं झेड़ने
 थे ॥ १५ ॥ जलही गंभीरताके कारण लम्बे २ चरनते हुए
 और गरजने हुए मेघोंके उदरमें सूर्य गोताभा लगा जाता था १६

महीरुहैरुपतिर्तः सलि गोत्पीडसंकुना । अन्विष्यमार्गं वसुधा
 भानि शाङ्खलपालिनी १ उवज्जंखेवानरुणानां नगानां नगशालि
 नाम् । स्रोतोभिः परिक्रन्तानि पतन्ति शिखराद्यपथः ॥ १८ ॥
 पतता मेरुवर्षेण यथा निम्नानुसारिणा । पत्न्यलोत्कीर्णसक्तेन
 पूर्वन्ते वनराजपः ॥ १९ ॥ हस्तोच्छिन्नमुखा वन्या मेघनादानु-
 सारिणः । भान्तपतिवृष्ट्या मातङ्गा गां गता इव तोयदाः ॥ २० ॥
 मानुड्वृत्तिं च संदश्य दृष्ट्वा चाम्बुधरान् घनान् । रौहिणेयो मिथः
 काले कृष्णं वननमवधीत् ॥ २१ ॥ पश्य कृष्ण घनान् कृष्णान्
 वलाकापंक्तिभूषणान् । गगने तव गात्रस्य वर्णचोरान् समुत्थि-
 तान् ॥ २२ ॥ तव निद्राकरः कालस्तव गात्रोपमं नभः । त्वमिवा-
 ज्ञातवसतिं चन्द्रो वसति वारिणीम् ॥ २३ ॥ एनन्नीलोत्पल-

उस समय पेड़ जलसे उखड़ कर जलमें लौट पौट होते हुए वहे
 जाते थे, तहाँ भूमि में जलके कारण मार्ग (वटिया) ढूँढनी
 पड़नी थी और पृथ्वी पर हरे २ नवीन तृण उगनेसे वह शोभा
 देरही थी १७ उस समय जलके स्रोतके कारण पर्वतोंके शिखर
 इस प्रकार टूट २ कर गिरने लगे मानों पहाड़ोंमें थोष्ट पहाड़ोंके
 शिखर वज्रसे टूट कर गिर रहे हों १८ जय मेघोंमेंसे वर्षा बरसने
 लगी तब जल तीचेको वहने लगा और उससे वनके तालाव
 भर गए और वन शोभा पाने लगे १९ अतिवृष्टि होनेसे गरजते
 हुए मेघका अनुकरण करने वाले दाधी अपनी सूँडको उठा कर
 गरजना करते समय पृथ्वी पर उतरे हुए मेघोंकी समान शोभा
 पाते थे २० वर्षाकालके जीवनको देख कर और जलके धारण
 करने वाले मेघोंको देख कर रौहिण्य वलारामने कृष्णसे कहा,
 कि-२१ हे कृष्णा आप वगलोंकी पंक्तिसे विभूषित काले बादलोंको
 देखिये, ये आपके शरीरके वर्णको चुरा कर आकाशमें पहुँच गए
 हैं २२ निद्रा लाने वाला काल और आकाश आपके वर्णकी

श्यामं नीलोत्पलदलप्रभम् । संपाप्ते दुर्दिने काले दुर्दिनं भाति
 वै नभः ॥ २४ ॥ पश्य कृष्ण जलोदग्रः कृष्णैरुद्ग्रगितैर्घनैः ।
 गोवर्धनो यथा रम्यो भाति गोवर्धनो गिरिः ॥ २५ ॥ पतितेना-
 भसा ह्येते समन्तान्मदर्षिताः । भ्राजन्ते कृष्णसारङ्गाः काननेषु
 मुदान्विताः ॥ २६ ॥ एतान्यंबुमहृष्टानि हरितानि मृदूनि च ।
 तृणानि शतपत्रात्त पत्रैर्गृह्णन्ति मेदिनीम् ॥ २७ ॥ क्षरज्जलानां
 शलानां वनानां जलदागमे । ससस्यानां च सीमानां न लक्ष्मी-
 र्व्यनिरिच्यते ॥ २८ ॥ शीघ्रवातसमुद्भूताः प्रोषितौत्सुक्यकारिणः ।
 दामोदरोद्दामरवाः प्रागज्ज्यं यान्ति तोयदाः ॥ २९ ॥ हरे हर्यश्व-
 चापेन त्रिवर्णेन त्रिविक्रम । विवाणज्येन रवितं तवेदं मध्यमं
 पदम् ॥ ३० ॥ नभस्येवन भश्चक्षुर्न भात्ये वनभस्तले । मेघैः

समान है, चन्द्रमा तुम्हारी समान वर्षामें अज्ञातवास करता है २३
 मेघोंसे ज्ञाये रहने वाले कालरू आने पर बादलोंसे घिरा हुआ
 यह आभाश नील कमलकी समान आभा वाला दीखता है २४
 देखो कृष्ण ! उदग्र जल वाले गुथे हुए काले २ मेघोंसे
 गोवर्धन पर्वत गौओंको बढ़ाने वाले रमणीय पर्वतमा शोभा
 पारहा है ॥ २५ ॥ जल पड़नेसे मदगत हुए ये कृष्णसारङ्ग
 जंगलोंमें आनन्दित होकर शोभा दे रहे हैं ॥ २६ ॥ हे शतपत्र
 कमलकी समान नेत्रों वाले ! जलसे हर्षमें भरकर हरे और मृदु
 बने हुए पत्ते पृथिवीको छिपाये देने हैं ॥ २७ ॥ वर्षा ऋतु आने
 पर जलको टपकाने वाले पर्वत वन और जुती हुई जमीनोंकी
 लक्ष्मी एरुसी दीखती है ॥ २८ ॥ शीघ्र चलने वाली वायुसे
 उड़ते हुए और गवासीं पुरुषोंको उत्सुक करने वाले और दामो-
 दर श्रीकृष्णकी सगान उद्दाम स्वर करने वाले मेघ प्रगल्भ वन
 गए हैं ॥ २९ ॥ हे हरे ! हे त्रिविक्रम ! वाण और प्रत्यञ्चा
 रहित तीन रंग वाले इन्द्रधनुषसे आपका मध्यम पद (आकार)

शीतातपकरो विरश्मिर्विव रश्मिवान् ॥ ३१ ॥ आचापृथिव्योः
 संसर्गः सततं विनतैः कृतः । अद्यवच्छिन्नधारोद्यैः समुद्रोद्यसर्ग-
 र्धनैः ३२ ॥ नीपार्जुनकदम्बानां पृथिव्यां चातिवृष्टिभिः । गन्धैः
 कोलाहला वान्ति वाता मदनदीपनाः ॥ ३३ ॥ संप्रवृत्तमहावर्षं
 लम्बमानमहांबुदम् । भात्यगाधगपर्यन्तं ससागरमिवांघरम् ३४
 धारानिर्मलनाराचं विद्युत्कवचवर्षिणम् । शक्रचापायुधधरं युद्ध-
 सज्जमिवाम्बरम् ॥ ३५ ॥ शैलानां च वनानां च द्रुमाणं च
 वराननम् । पतिच्छन्नानिभासं ते शिखराणि घनैर्धनैः ॥ ३६ ॥
 गजानीकैरिवाकीर्णं सलिलोद्धारिभिर्धनैः वर्णसारुप्तां वाति
 गमनं मागरस्य च ॥ ३७ ॥ समुद्रोद्भूतजनिता लोलाः शाड्वल-

शोभित कर दिया गया है ॥ ३० ॥ आवणके पासमें आकाश
 मेंका नभश्चक्र (सूर्य) मेवोंके द्वारा शीतल किरणें होजानेसे
 किरणरहितकी समान शोभा नहीं देता है ॥ ३१ ॥ अत्रिच्छिन्न
 धारा वाले समुद्रके पवाहकी समान ओघ वाले पेघोंने निरन्तर
 वर्षा वरसा कर आकाश और पृथिवीको मिलासा दिया है ३२
 अतिवृष्टि होनेसे नीप कदम्ब और अर्जुनके पेड़ोंकी गन्ध लेकर
 कल २ करके बढ़ता हुआ वायु मदनको जगाता हुआ बह रहा
 है ॥ ३३ ॥ बड़ी भारी वर्षा वरसाने वाले लम्बे चौड़े महामेघ
 को धारण करने वाला आकाश अथाह और अपार समुद्रको
 धारण करता हुआसा दीख रहा है ॥ ३४ ॥ धारारूपी निर्मल
 वाणोंको वरसाता हुआ विजलीरूपी कवचको पहरने वाला
 और इन्द्रधनुषके आयुधको धारण करने वाला आकाश युद्धके
 लिये तयार हुआ दीख रहा है ॥ ३५ ॥ आकाश शैल वन और
 पेड़ोंका श्रेष्ठ सुगन्ध मालूम होरहा है, घने बादलोंसे घिरे हुए
 पर्वतोंके शिखर शोभा पा रहे हैं ॥ ३६ ॥ जलको उगलने वाले
 मेघोंसे घिरा हुआ आकाश राधियोंकी फीजोंसे घिरा हुआसा

कम्पिनः । शीताः सपृषतोद्दामाः कर्कशा वान्ति मारुताः ३८
 निशासु सुप्तचन्द्रासु मुक्ततोयासु तोयदैः । मग्नसूर्यस्य नभसो
 न विभान्ति दिशो दश ॥ ३६ ॥ चेतनं पुष्करं कोशैः क्षुधा-
 धमानैः समन्ततःान घृणीनां न रम्याणां चिवेकं यान्ति वृष्टयः ४०
 घर्मदोषपरित्यक्तं मेघतोयत्रिभूषितम् । परय वृन्दावनं कृष्णवनं
 चैत्ररथं यथा ४१ एवं प्रावृद्धगुणान् सर्वान् श्रीमान् कृष्णस्व पूर्वजः ।
 कथयन्नेव बलवान् व्रजमेव जगाम इ ४२ अन्योन्यं रममाणौ तु
 कृष्णसंकर्षणाद्युभौ । तत्कालज्ञातिभिः सार्धं चेरतुस्तद्वनं महत् ४३
 इति श्रीमहाभारते खिलंपु हरिवंशे विष्णुपर्वणि प्रावृद्ध-
 वर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

मालूम होरहा है, इसप्रकार आकाश समुद्रके आकार वालासा
 दीख रहा है ॥ ३७ ॥ इस समय समुद्रके हिलोरे लेगेसे उत्पन्न
 हुए चंचल और नई २ घासको कॅपाने वाले शीतल और बड़ी
 बड़ी बूंदों वाले कर्कशा वायु बह रहे है ३८ ॥ जैसे सूर्यके छिप
 जाने पर दशों दिशाएँ प्रकाशित नहीं होती है, इसी प्रकार
 जिनमें चन्द्रमा छिप जाता है ऐसी मेघोंसे जल बरसाने वाली
 रात्रियोंके कारण दशों दिशाएँ खिलती नहीं है ॥ ३६ ॥ वायुसे
 भरी हुई धौकनियोंकी समान मेघोंसे भराहुआ आकाश
 चेतनसा पनीन होरहा है, इस समय क्रिमाणोंको न दिनका भान
 होता है, न रातका पता चलता है ४० हे कृष्ण ! इस समय
 चैत्ररथकी समान गर्मोंके दोषसे मुक्त मेघ और जलसे विभूषित
 वृन्दावन वनको देखिये ४१ श्रीकृष्णके बड़े भाई श्रीमान बल
 वान् रात्र इस प्रकार वर्षा ऋतुके सब गुणोंका वर्णन करते
 हुए व्रजको चले गए ४२ आपसमें कीड़ा करते हुए श्रीकृष्ण और
 बलराम अपने उस समयकी जाति वालोंके साथ कीड़ा करते
 हुए उस महावनमें विचरण करने लगे ३६ दशम अध्याय समाप्त

वैशम्पायन उवाच । कदाचित्तु तदा कृष्णो विना संकर्षणेन
 नै । चचार तद्वनं रम्यं कामरूपी वराननः ॥ १ ॥ काकपत्तधरः
 श्रीमान् श्यामः पद्मदलेक्षणः । श्रीवत्सेनोरसा युक्तः शशांक
 इव लक्ष्मणा ॥ २ ॥ सांगदेनाग्रहस्तेन पैकगोद्धिन्न-
 चर्चसा । सुकुमाराभिताम्रेण क्रान्तविक्रान्तगामिना ॥ ३ ॥ पीते
 पीतिकरे नृणां पद्मकिञ्चकसप्रभे । मृचमे वसानो वसने ससंध्य
 इव तोषदः ॥ ४ ॥ वत्सव्यापारयुक्ताभ्यां व्यग्राभ्यां दण्ड-
 रञ्जुभिः । भुजाभ्यां साधुवृत्ताभ्यां पूजिताभ्यां दिवौकसेः ५
 सदृशं पुण्डरीकस्य गन्धेन कमलस्य च । रराज चास्य तद्धान्ये
 रुचिरौष्ठपुटं मुखम् ॥ ६ ॥ शिखाभिस्तस्य मुक्ताभी रराज

वैशम्पायनजीने कहा, कि-एक समय इच्छानुसार रूप धारण
 करने वाले और सुन्दर मुख वाले श्रीकृष्ण संकर्षणके विना
 अकेले ही उस वनमें विचरण करने लगे ॥ १ ॥ उस समय वह
 काकपत्तको धारण कर रहे थे और पद्मपत्रकी समान विशाल
 नेत्रों वाले श्रीमान् श्याम शशांक (चन्द्रमा) के लक्ष्म (मृग-
 विन्द) धारण करनेकी समान अपने वक्षःस्थल पर श्रीवत्सके
 विन्दुके धारण कर रहे थे ॥ २ ॥ खिले हुए कमलकी समान
 आभा वाले वाञ्छुवन्दयुत हाथसे और सुकुमार तथा ताम्रवर्ण
 वाले कदम २ चलने वाले चरणसे और मनुष्योंको प्रसन्न करने
 वाले पद्मके परागकी समान प्रभावाले पीले दो वस्त्रोंको धारण
 करने वाले श्रीकृष्ण संन्याकालीन मेघकी समान दीखते थे ३-४
 श्रीकृष्ण अपनी देवपूजित सुडील गोलाई वाली भुजाओंसे दंड
 और रञ्जुको चलाकर बद्धोंको हाँकते हुए शोभा पारहे थे ५
 श्रीकृष्णका वात्प्रावस्थाका मनोहर ओठ वाला मुख पुण्डरीक
 की समान था और उसमें कमलकी समान गन्ध आती थी ६
 विखरी हुई अलकों वाला श्रीकृष्णका मुखकमल भौरोंसे त्रिरे

सुखपंकजम् । वृतं पट्टपदपंक्तीभिर्यथा स्यात् पद्मपण्डलम् ॥७॥
 तस्यार्जुनकदम्बाढ्या नीपकन्दलमालिनी । रराज माला शिरसि
 नक्षत्राणां यथा दिवि ॥ ८ ॥ स तथा मालया वीरः शृशुभे
 कण्ठसक्तया । मेघमालाम्बुदश्याभो नभस्य इव मूर्तिवान् ॥९॥
 एकेनामलपत्रेण वण्डसूत्रावलांबिना । रराज बर्हिपत्रेण मन्द-
 मारुतकम्पिना ॥ १० ॥ क्वचिद् गायन् क्वचित् क्रीडंश्चञ्चू-
 र्यश्च क्वचित् क्वचित् । पणवाद्यं श्रुतिसुखं वादयंश्च क्वचित्
 वने ॥११॥ गोपवेणुं सुमधुरं कामात्तमपि वादयन् । प्रन्हाद-
 नार्थं च गवां क्वचिद्गनगता युवा ॥ १२ ॥ गोकुलेम्बुधरश्याम-
 श्वचार द्युतिमान् गभुः।रेमे च तत्र रम्यासु वित्रासु वनराजिपु ३
 गगुरैरवघुप्रासु मदनोद्दीपनीपु च । मेघनादप्रतिव्युडैर्नादितासु

हुए कमलकी समान मालूम होता था ॥ ७ ॥ आकाशमें नक्षत्र
 मालाकी समान श्रीकृष्णके गलेमें पड़ी हुई कदम्बके फूल और
 अंकुरोंकी माला शोभा देरही थी ॥ ८ ॥ वीर श्रीकृष्ण कण्ठमें
 पड़ी हुई उस मालासे मेघमालाके वादलोंसे श्याम शरीर वाले
 साक्षात् भाद्रपदकी समान शोभा देरहे थे ॥ ९ ॥ उनके गलेमें
 पड़े हुए डोरेमें मोरका एक पर पड़ा हुआ था और वह
 मन्द २ चलते हुए पवनसे हिल रहा था ॥१०॥ श्रीकृष्ण कहीं
 गाने लगते थे, कहीं क्रीडा करने लगते थे और कभी शीघ्रतासे
 विचरण करने लगते थे और कहीं पर वे फानोंको सुख देने
 वाले पखन आदिको बजाने लगते थे ॥ ११ ॥ और कभी वह
 युवा वन कर गौत्रोंने प्रसन्न करनेके लिये अपनी इन्द्रासे सुम-
 धुर वेणु (मुरली) को बजाने लगते थे ॥१२॥ मेघकी समान
 श्याम वर्ण वाले कान्तिमान् श्रीकृष्ण विचरणे लगे रमण करने
 लगे ॥ १३ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्ण जिनमें मेघके गर्जनको सुन
 कर मयूर प्रतिध्वनि कर रहे थे उने कामको मदीप्त करने वाली

सगन्ततः ॥ १४ ॥ शाङ्खलञ्जन्नगार्गागु शिलीन्ध्राभरणामु च ।
 कन्दलापलापनासु सृवन्तीषु नवं जलम् ॥ १५ ॥ कंसराणां नवै-
 र्गन्धैर्गदनिःश्वसितोपमैः । अभीक्ष्णं निःश्वसन्तीषु कामिनी-
 ष्वित्र नित्यशः ॥ १६ ॥ सेव्यमानो नवैर्वातैर्द्रुपसंप्रातनिःसृतैः ।
 तामु कृष्णो मुदं लेभे सौम्यासु वनराजिषु ॥ १७ ॥ त कदा-
 चित् वने तस्मिन् गोभिः सह परिभ्रमन् । ददर्श विपुलोदग्रं
 शाखिनं शाखिनां चरम् । स्थितं धरण्यां मेघाभं निविडं दल-
 संचयैः । गगनोर्ध्वोच्छ्रिनाकारं पर्वताभोगधारिणम् ॥ १८ ॥
 नीलवित्रांगवर्णैश्च सेवितं बहुभिः खगैः फलैः प्रवालैश्च घनैः
 सेन्द्रचापनेोपमम् ॥ २० ॥ भवनाकारद्विष्टं लतापुष्पसुगण्डि-

वनराजियोंमें भ्रमण करने लगे ॥ १४ ॥ तदनन्तर वह घाससे
 छाये हुए मार्ग वाली और बेलके फलका आभूषण धारण
 करने वाली और नवीन पत्रोंके पात्र वाली और नवीन जलमे
 टपकाने वाली वनराजियोंमें विचरण करने लगे ॥ १५ ॥ तद्
 नन्तर वह गदनके उच्छ्वासकी समान कंसरकी नवीन गन्धकी
 वहाने वाली तथा कामिनीकी समान सर्वदा उच्छ्वास छोडने
 वाली वनराजियोंमें भ्रमण करने लगे ॥ १६ ॥ उन सौम्य वन-
 राजियोंके वृत्तोंके सुरमुद्रोंमेंसे निकलती हुई नवीन २ गन्धोंका
 सेवन करते हुए श्रीकृष्ण परम आनन्दित हुए ॥ १७ ॥ ऊर्ध्वोने
 वनमें गीर्धोंके साथ खूबते २ एक समय चडी २ शाखाओंवाले
 वृत्तोंमें श्रेष्ठ चटवृत्तको देखा ॥ १८ ॥ वह अपने घने वृद्धोंसे
 अन्धकारसा फैलाता हुआ पृथिवीमें मूर्तिमान् मेघकी समान
 खड़ा था, वह गगनमें ऊपरको उठा हुआ होनेसे परिपूर्ण पर्वत
 को धारण करने वाला दीखता था ॥ १९ ॥ उस पर बहुतसे
 नीले वर्णवाले मयूर बडे थे और उसमें मूँगेकी समान फल लग
 रहे थे इससे वह इन्द्रचाप वाले मेनकी समान दीख रहा था २०

तम् । विशालमूलावनतं पवनाम्भोधधारिणम् ॥ २१ ॥ आधि-
पत्यमिवान्येषां तस्य देशस्य शाखिनाम् । कुर्वाणं शुभकर्माणं
निरावर्षमनातपम् ॥ २२ ॥ न्यग्रोधं पर्वताग्राभं भाण्डीरं नाम
नामतः । दृष्ट्वा तत्र मतिं चक्रे निवासाय ततः प्रभुः ॥ २३ ॥ स
तत्र वयसा तुल्यैर्वत्सपालैः सहानघ । रमे वै वासरं कृष्णं पुरा
स्वर्गगतो यथा ॥ २४ ॥ तं क्रीडमानं गोपालाः कृष्णं भांडीर-
वासिनम् । रमयन्ति स्म बहवो वन्यैः क्रीडनकैस्तदा ॥ २५ ॥
अन्ये स्म परिगायन्ति गोपामुदितमानसाः । गोपालाः कृष्णमे-
वान्ये गागन्ति स्म रतिप्रियाः ॥ २६ ॥ तेषां स गायतामेव वादया-
मास वीर्यवान् । पणत्राद्यान्तरे वेणुं तुम्बीवीणां च तत्र ह २७
कदाचिच्चारयन्नेव गाः स गोवृषभेक्षणः । जगाम यमुनातीरं

वह वितप भवनाकार वाला था और लताके पुष्पोसे मण्डित था,
उसकी विशाल जड़े नीचेको झुकी हुई थी और पवन और
मेरुको धारण कर रहा था ॥ २१ ॥ उस देशमें गगे हुए और
वृक्षों पर वह आधिपत्यसा कर रहा था उन पर वर्षा और धूप
न पडने देकर वह शुभ कर्म कर रहा था ॥ २२ ॥ ऐसे पर्वतके
शिखरकी समान आभा वाले भाण्डीर नामक वटके देख कर
प्रभुने उस वृक्षके नीचे निवास करनेका विचार किया ॥ २३ ॥
हे अनघ ! तहाँ पर श्रीकृष्णने अपने समवयस्क वत्सपालोंके
साथ दिनभर रमण किया, तहाँ उन्हें स्वर्गकी समान आनन्द
मिला २४ भाण्डीर पर बस कर क्रीडा करने वाले कृष्णको
उनके बहुसे गित्र जंगली खिलौनोंसे खिलाने लगे ॥ २५ ॥ कुछ
गोप मनमें मनमें पसन्न होकर गाने लगे कुछ रतिप्रिय गोपाल
श्रीकृष्ण का ही गान करने लगे ॥ २६ ॥ वीर्यवान् श्रीकृष्ण
उनके गाते २ वीनमें ही पणत्र वेणु और तोंबीकी वीणाको
बजाने लगते थे ॥ २७ ॥ एक समय गौ और वृषभकी समान

लतालंकृतपादपम् ॥ २८ ॥ तरंगापाङ्गकुटिलां वारिस्पर्शमुखा-
 निलाम् । तां च पद्मात्पलवतीं ददर्श यमुनां नदीम् ॥ २९ ॥
 सुतीर्थं स्वादुसलिलां हृदिनीं वेगगामिनीम् । तोयनातोद्यतैर्वैगै-
 रवनामितपादपाम् ॥ ३० ॥ हंसकारण्डचंद्रघुष्टां सारसैश्च निना-
 दिताम् । अनर्घमिशुनैश्चैव सेवितां मिथुनेनरैः ३१ ॥ जलजैः
 प्राणभिः कीर्णां जलजैर्भूषितां मुखैः । जलजैः कुसुमैश्चित्रां
 जलजैर्हरितोदकाम् ॥ ३२ ॥ प्रसृतस्रोतचरणां पुलिनश्रोणि-
 मंडलाम् । आवर्तनाभिगम्भीरां पंकरोमानुरञ्जिताम् ॥ ३३ ॥
 तटच्छेदोदरां कान्तां त्रिनरंगवलीधराम् । फेनप्रहृष्टवदनां प्रसन्नां
 हंसहासिनीम् ॥ ३४ ॥ रुचिरात्पलदन्तौष्टीं नतभ्रूः जलजेत-
 नेत्रो बाले श्रीकृष्ण गीर्वाको चराते हुए लताश्रांसे अलंकृत
 वृत्तो बाले यमुनातीके तट पर पहुँच गए ॥ २८ ॥ तहाँ उन्होंने
 तरङ्गांका कटाक्ष करने वाले कुटिल तटों वाली और वारिस्पर्श
 रूपी मुखकी पवन वाली तथा पद्म और उत्पल (कमलविशेष)
 वाली यमुना नदीको देखा ॥२९॥ उसकी पैड़ियें बड़ी अच्छी
 थीं और उसका जल स्वादु था उसमें सरोवर थे और वह वेगसे
 वह रही थीं और अपने प्रवाहके वेगसे वह वृत्तोंको झुका रही
 थीं ॥३०॥ तहाँ पर हंस और कारण्डव शब्द कर रहे थे और
 सारस निनाद कर रहे थे और जोड़ेसे फिरने वाले चक्रवाक
 आदि उसकी सेवा कर रहे थे ३१ ॥ जलमें उत्पन्न हुए मीन
 आदि और जलके शीतलता आदिसे विभूषित जलके पद्म आदिसे
 भूषित और जलकी सिवारसे यमुना हरी दीख रही थी ॥३२॥
 (अब यमुना नदीका स्त्रीरूपमें वर्णन करते हैं) वहता हुआ
 स्रोत उसके चरण थे और रेत उसका श्रोणिमण्डल था और
 भ्रमर उसकी गम्भीर नाभि थी और कर्कश रूपी रोमसे बह
 भरी हुई थी ३४ ॥ मनोहर कमल उसके होठ थे उसकी भौंएँ

णाम् । हृद्दीर्घललाटान्तां कान्तां शैवलमूर्धनाम् ॥ ३५ ॥ चक्र-
वाकस्तनतटां तीरपाश्चात्पाननाम् । दीर्घस्रोतापतभुजापाभोग-
श्रवणायनाम् ॥ ३६ ॥ कारंडवाकुंडलिनीं श्रीमत्पंकजलोचनाम् ।
तटजागरणोत्तां मीननिर्मलमेखलाम् ॥ ३७ ॥ वारिस्रवसवर्त्तमां
सारसारावन्तूपुराम् काशपुष्पमगं वासो वसानां हंसलक्षणाम् ३८
भीषनक्रानुलिताङ्गीं कूर्मलक्षणभूषिताम् । निपानश्वापदापीडां
वृषिः पीनपयोधराम् ॥ ३९ ॥ श्वापदोच्छ्रिष्टसलिलामाश्रमस्थान-
संकुलाम् । तां समुद्रस्य गहिणीगीर्त्तणाः समन्ततः ॥ ४० ॥

जम् थीं और कमल उसके नेत्र थे और सरोवर ही उसका बड़ा
भारी ललाट था और सिवार उसके केश थे ऐसी कान्ताको
श्रीकृष्णने देखा ॥ ३५ ॥ चक्रवाक उसके स्तनतट थे तटरूपी
पार्व उसका चौड़ा मुख था वट्टे २ स्रोत उसकी लम्बी भुजाएँ
थी और दोनों तटों पर पूर्ण रूपमें भरा हुआ जल ही उसके
लम्बे नेत्र थे ॥ ३६ ॥ वह कारण्डव (देह चिड़िया) के कुण्डल
पहर रही थी और शोभापय कमल उसके नेत्र थे और वह
तटजाके आभरण पहिर रही थी और मीनोंकी निर्मल मेखला
पहर रही थी ॥ ३७ ॥ जलमें फैलने वाले सिवार उसके विपुल
रेशमी वस्त्र थे और वह गल्लके सार (मोती आदि) के तूपुर
पहर रही थी और वह कासके पुष्पके वस्त्र धारण कर रही थी
और हंससी दीख रही थी ॥ ३८ ॥ भयंकर नाकोंका चन्दन
उसके शरीर पर लगा रहा था और वह कछुएके लक्षणोंसे
भूषित थी, निपान(पिशुके जल पीनेके स्थानोंके ऊपरके) श्वापद
के भूषण धारण कर रही थी और वह मनुष्यरूपी वट्टे २ पयो-
धरों (स्तनों) को धारण कर रही थी ॥ ३९ ॥ श्वापद उसके
जलसे भूँटा कर रहे थे और उसके तटों पर आश्रम स्थान बन
रहे थे, श्रीकृष्ण उस समुद्रकी पटरानीको चारों ओर देखते

चचार त्रिपुलां कृष्यो यमुनामुपशोभयन् । तां चरन स नदीं
 श्रेष्ठां ददश हृदमुत्तमाम् ॥ ४१ ॥ दीर्घं योजनविन्तारं दुरत्तरं
 त्रिदशैरपि । गम्भीरमत्तोभ्यजलं निष्कम्पमिव सागरम् ॥ ४२ ॥
 तोयजैः श्वापदैस्त्यक्तं शून्यं तोयचरैः स्वगैः । अगोधनाम्भसा
 पूर्णं मेघपूर्णमिवाम्बरम् ॥ ४३ ॥ दुःखोपसर्पतीरेषु ससर्पैर्विपुलै-
 र्विनीः । विपारणिभवस्वाग्नेर्धुमेन परिवेष्टितम् ॥ ४४ ॥ अभोग्यं
 तत्पशुनां हि अपेयं च जलार्थिनाम् । उपभोगैः परित्यक्तं सुरै-
 स्त्रिपवणार्थिभिः ॥ ४५ ॥ आकाशादप्यसंनार्यं स्वगौराकाश-
 गोचरैः । तृणेष्वपि पतत्स्वप्सु ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ४६ ॥
 समंताद्योजनं सार्धं देवैरपि दुरासदम् । विपानत्नेन घोरैश्च
 हुण् और उसको शोभित करते हुए विचरण करने लगे,
 उस नदी पर घूमते २ उन्हींने एक उत्तम सरांवर देखा ॥ ४० ॥
 वह चार कोस चौड़ा था और देवता भी उसके पार कठिनतासे
 जा सकते थे वह बड़ा गम्भीर था उसका जल अत्तोभ्य था
 और वह अत्तोभ्य ममुद्रकी समान दीखता था ॥ ४२ ॥ वह
 जलचर पक्षियोंसे और जलचर जीवोंसे भी शून्य था उसमें
 अगाध जल भर रहा था इससे वह पेयोंसे घिरे हुए आकाशकी
 समान दीख रहा था ॥ ४३ ॥ उसके तटों पर सर्पोंके बहुतसे
 विल्ल थे इससे उसके तटों पर चलना कठिन था और सर्पोंके
 (श्वास लेनेके) कारण उत्पन्न हुई अग्निके धूमसे घिर रहा
 था ॥ ४४ ॥ पशु उसको नहीं भोगते (पीते) थे और जल
 चाहने वाले गिलासे जीव भी उसको अपेय समझते थे और
 त्रिपवण करने वाले देवताओंने उसका उपभोग करना छोड़ दिया
 था ॥ ४५ ॥ उसके जलके ऊपरके आकाशमें भी आकाशचारी
 पक्षी नहीं विचरते थे जो तृण उसमें पड़ जाते थे वे तेजसे जलने
 से लगते थे ॥ ४६ ॥ वह चारों ओरसे चार कोससे कुछ अधिक

ज्वालाज्ज्वलिद्गुपम् ॥ ४७ ॥ व्रजस्योत्तरतस्नस्य क्रोशमात्रे
 निरामये । तं दृष्ट्वा चिन्तयामास कृष्णो वै विपुलं हृदम् ॥४८॥
 अमाधं द्योतमानं च कक्ष्यायं महतो हृदः । अस्मिन् स कालियो
 नाम नीलांगनचयोपमः । उरगाधिपतिः सान्नाद्भ्रदे वसति
 दारुणः । उत्सृज्य सागरावासं यो मया निर्मितः पुरा ॥५०॥
 भयात् पतगराजस्य सुपर्णस्योरगाशिनः । तेनेयं दूषिता सर्वा
 यमुना सागरंगमा ॥ ४९ ॥ भयात्तस्योरगपतेर्नायं देशो निपे-
 व्यते । तदिदं दारुणाकारमरणं रुद्धशास्त्रम् ॥५२॥ सावरो-
 हद्रुमं घोरं कार्यं नानाल्नाद्रुमैः । रक्षितं सर्पराजस्य संचिवै-
 राप्तकारिभिः ॥५३॥ वनं निर्विषयाकारं विषान्नमिव दुःस्पृशम् ।
 तैराप्तकारिभिर्नित्यं सर्वतः परिरक्षितम् ॥ ५४ ॥ शैवालनलि-

या, देवता भी उसमें कठिनतासे घुस सकने थे उसमें घोर
 विषाग्निकी ज्वालासे वृक्ष प्रज्वलित हो रहे थे ॥ ४७ ॥ व्रजके
 उत्तर कोस भरकी दूरी पर निरामय स्थानमें उस बड़े भारी
 अमाध सरोवरको प्रकाशित होते देख कर कृष्णने विचारा, कि-
 यह बड़ा भारी हृद किसका है, मैं समझता हूँ, कि-नीलाङ्गन
 के ढेरकी समान कालिय नागक नाग यहाँ वसता होगा ४८ ४९
 मैंने इसको जीत कर समुद्र छुडवा दिया था, वही यह उरगाधि-
 पति यहाँ वस रहा होगा ॥ ५० ॥ सर्पभक्तक पन्निराज गरुडके
 भयसे यह वहाँ आगया प्रतीत होता है, इस सर्पने समुद्रगामिनी
 यमुनाजीको दूषित कर रक्खा है ॥५१॥ उस सर्पपतिके भयसे
 इस देशका मनुष्य-सेवन नहीं करते हैं और यह घाससे भरा
 हुआ वन दारुण दीर्घ रहा है ॥ ५२ ॥ इस नाना प्रकारकी
 लताओंसे और बेल चढ़े हुए वृक्षोंसे घिरे हुए वनकी सर्पराजके
 पत्नी रक्षा करते हैं ॥५३॥ उसके आप्त सेवकोंसे चारों ओरसे
 रक्षित यह वन आकाश की समान निर्विषय (देश शुन्य)

नैश्वापि वृक्षैः क्षुद्रलताकुलैः । कर्तव्यमार्गो भ्राजते हृदस्यास्य
 तटानुभौ ॥ ५५ ॥ तदस्य सर्पराजस्य कर्तव्यो निग्रहो मया ।
 यथेयं सरिदम्भोदा भवेच्छिवजलाशया ॥ ५६ ॥ ब्रजोपभोग्या
 च यथा नागे च दमिते मया । सर्वत्र सुखसंचारा सर्वतीर्थसुखा-
 श्रया ॥ ५७ ॥ एतदर्थं च वासोऽयं ब्रजेऽस्मिन् गोपजन्म च ।
 अमीषामुत्पथस्थानां निग्रहार्थं दुरात्मनाम् ॥ ५८ ॥ एनं कदम्ब-
 गारुड तदेव शिशुलीलाया । विनिपत्य हृदे घोरे दमयिष्यामि
 कालियम् ॥ ५९ ॥ एवं कृते बाहुवीर्यं लोके ख्यातिं गमिष्यति ०
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि बालचरिते
 यमुनावर्णनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

होगया है और विप मिले भोजनकी समान इसका स्पर्श भी
 कठिनतासे किया जाता है ॥ ५४ ॥ शैवाल (सिवार) नलिन
 और छोटी २ लताओंसे घिरे हुए उसके दोनों तटों पर मार्ग
 बनाना उचित प्रतीत होता है ये दोनों नद ही इस कामके लिये
 प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ५५ ॥ अतः मुझै इस सर्पराजका निग्रह
 करना चाहिये तब यह नदी मंगलप्रद जल वाली और जल
 ग्रहण करने योग्य होजायगी ५६ यदि मैं इस नागका दमन
 कर डालूँगा तो इस नदी (कुण्ड)का ब्रजके मनुष्य उपभोग
 कर सकेंगे और इस पर सर्वत्र सुखपूर्वक विचरण कर सकेंगे
 और इसके सब घाटोंकी सीड़ियों पर सुखपूर्वक उतर सकेंगे ५७
 मैं इन कुपार्गगामी दुरात्माओंका निग्रह करनेके लिये ही ब्रजमें
 बस रहा हूँ और मैंने गोपोंमें जन्म लिया है ५८ अब मैं शिशु-
 लीलामें इस कदम्बर चढ़ कर इसके ऊपरसे इस भयंकर
 कुण्डमें कूद कर इस कालिय नागका दमन करूँगा ५९ (ऐसा
 करने पर मेरा भुजवीर्य संसारमें प्रसिद्ध होजायगा) ॥ ६० ॥
 ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ११

वैशम्पायन उवाच । सोपसृत्य नदीतीरं वध्वा परिकरं
 दृढम् । आरोहच्चपलः कृष्णः कदम्बशिखरं मुदा ॥१॥ कृष्णः
 कदम्बशिखराज्जलम्यगानो घनाकृतिः । हृदमध्येऽकरोच्छब्दं
 निपतन्नंबुजेक्षणः ॥ २ ॥ कृष्णेन तत्र पतता क्षुभितो यमुना-
 हृदः । संप्रापिच्यत वेगेन भिद्यमान इवांशुदः ॥३॥ तेन शब्देन
 संक्षुब्धं सर्पस्य भयनं महत् । उदतिष्ठन्नलात् सर्पो रोषपर्याकुले-
 क्षणः ॥ ४ ॥ स चोरगपतिः क्रुद्धो मेघराशिसगप्रभः । ततो
 रक्तावनयनः कालियः समदृश्यत ॥ ५ ॥ पञ्चास्यः पावने-
 द्धासश्वलज्जिनद्वोऽनलाननः । पृथुभिः पञ्चभिर्वोरैः शिरोभिः

(“श्रुतिमें लिखा है कि—योऽहन्नहिमन्यवपस्ततर्देत्य पादहस्तो
 अपृतन्यदिन्द्रम्”—अर्थात् जिस सर्पने यमुनाके जलोंको विपैला
 कर दिया था उसको मार डाला (पीड़ित क्रिया) उस पादहीन
 श्वास लेते हुए सर्पने इन्द्र (आत्मा) से युद्ध किया था, इस श्रुति
 में कालियदमनका आभास मिलता है) वैशम्पायनजीने कहा,
 कि—यह विचार कर चपल कृष्णने नदीके तट परसे हट कर
 अपने परिकर (मुट्टी वा लँगोट) को दृढ़तासे बाँधा और प्रसन्न
 होते हुए कदमकी चोटीपर पहुँच गए ॥ १ ॥ फिर कमलकी
 समान नेत्र वाले और मेघकी समान आकार वाले श्रीकृष्ण
 कदमकी डाल परसे शब्द करते हुए कुण्डमें कूद पड़े ॥ २ ॥
 कृष्णके कूदने पर वह यमुनाजीका कुण्डा क्षुब्ध होगया और
 उसने दृष्टते हुए मेघकी समान (आस पासकी भूगिकी) भिगो
 दिया ॥ ३ ॥ (श्रीकृष्णके कूदनेके) बड़े भारी धड़केके कारण
 सर्पके भयनमें खलबली मच गई और अपने नेत्रोंको रोषमें भर
 वह सर्प ऊपरको भी आगया ४ उस सर्पगतिके शरीरकी आभा
 मेघकी समान थी, क्रोधमें भरनेके कारण कालियके नेत्रोंके
 कोर लाल २ होगए उसके पाँच शिर थे, श्वास लेनेसे उसकी

परिवारितः ॥ ६ ॥ पूरयित्वा हृदं सर्वं भोगेनानलवर्षसा । स्फुरन्निव च रोपेण ज्वलन्निव च तेजसा ॥ ७ ॥ क्रोधेन तज्जलं तस्य सर्वं शृतमिवाभवत् । प्रतिस्रोता च भीतेव जगाम यमुना नदी ॥ ८ ॥ तस्य क्रोधाग्निपूर्णंभ्यो वक्रोभ्योऽभूच्च मारुतः । दृष्ट्वा कृष्णं हृदगतं क्रीडन्तं शिशुलीलया ॥ ९ ॥ सधूमाः पन्नगेन्द्रस्य मुखान्निश्चेहरविषः । सृजता तेन रोषाग्निं समीपे तीरजा दुषाः ॥ १० ॥ क्षणेन भस्मसान्नीया युगान्तप्रतिगेन वै तस्य पुत्राश्च दाराश्च भृत्याश्चान्ये महोरगाः ॥ ११ ॥ वमंतः पावकं घोरं वक्रोभ्यो विपसंभवम् । सधूमं पन्नगेन्द्रास्ते निष्पेतुरमितौजसः ॥ १२ ॥ प्रवेशितश्च तैः सर्पैः स कृष्णो भोगबन्धनम् । निर्यत्नचरणाकारस्तथो गिरिर्वाचलः ॥ १३ ॥ अदशन

जीर्णं लपलपा रहीं थी इस प्रकार वह माटे २ पाँच शिरो (फनों) को धारण कर रहा था ॥ ६ ॥ उसने अपने अग्निकी समान फान्तिमान् शरीरसे सारे सरोवरको भर दिया और वह रोपमें भर कर काँपने लगा तथा तेजसे प्रज्वलित होने लगा ॥ ७ ॥ उसके क्रोध करने पर सारा जल उबलनेसा लगा और यमुना नदी डर कर उल्टी बहने लगी ॥ ८ ॥ वह श्रीकृष्णको सरोवर पर चालक्रीड़ा करते देख कर अपने अग्निपूर्ण मुखोंसे फुँकारे मारने लगा ॥ ९ ॥ उस समय उस सर्पराजके मुखमेंसे लपटें निकलने लगीं जब उसने अपने रोषाग्निको उगला तो उस प्रलयकालकी अग्निकी समान रोषाग्निसे आस पासके वृक्ष क्षणभरमें भस्म होगए उसके अतिरिक्त उसके अमित पराक्रमी पुत्र स्त्री और भृत्य आदि पन्नगराज महासर्प विपकी आगकी उगलते हुए निकल आये ॥ १०—१२ ॥ तदनन्तर धे सप श्रीकृष्णको लपेटने लगे उस समय वह चरणके आकारमें यत्नरहित होकर पर्वतकी समान अचल होगए ॥ १३ ॥ तदनन्तर उन सर्पोंने

दशनेस्तीक्ष्णैर्विषोत्पीडजलाविलैः । ते कृष्णं सर्पपतयो न ममार
 च वीर्यवान् ॥ १४ ॥ एतस्मिन्नन्तरे भीमा गोपालाः सर्प एव
 ते । क्रन्दमाना व्रजं जग्मुर्वाष्पगद्गदया गिरा ॥ १५ ॥ गोपा
 ल्युः । एष मोहं गतः कृष्णो मग्नो वै कालिये हृदे । भक्ष्यते
 सर्पराजेन तदागच्छत गा चिरम् ॥ १६ ॥ नन्दगोपाय वै क्षिप्रं
 सवलाय निवेद्यताम् । एष ते कृष्यते कृष्णः सर्पेणेति महा-
 हृदे ॥ १७ ॥ नन्दगोपस्तु तच्छ्रुत्वा वज्रपातोपमं वचः । आर्तः
 स्वलितविक्रान्तस्तं जगाम हृदोत्तमम् ॥ १८ ॥ सवाल्युवतीवृद्धः
 स च संकृर्षणो युवा । आक्रीडं पन्नगेन्द्रस्य जलस्थं समुपा-
 गमत् ॥ १९ ॥ नन्दगोपमुखा गोपास्ने सर्पे साश्रुलोचनाः ।
 हाहाकारं प्रकुर्वन्तस्तस्थुस्तीरे हृदस्य वै ॥ २० ॥ व्रीडिता विस्मि-
 तारचैव शोकार्ताश्च पुनः पुनः । केचित्तु पुत्र हाहेति हा धिगित्स-

अपने तीक्ष्ण और जलको विषसे गदली करने वाली डाढ़ोंसे
 श्रीकृष्णको डस लिया परन्तु वह वीर्यवान् मरे नहीं १४ उस
 समय सब गोपाल डर कर रुंधे हुए कण्ठसे रोते हुए व्रजको
 भाग चले ॥ १५ ॥ गोपोंने कहा, कि-यह कृष्ण मोहमें पड़
 कर कालिय हृदमें कूद पड़े हैं अब इनको सर्पराज खाये जाता
 है अतः अब शीघ्र ही दौड़ो ॥ १६ ॥ और नन्दगोप तथा बल-
 रामसे कहो, कि-महासरोवरमें सर्प तुम्हारे कृष्णको खेंच रहा
 है ॥ १७ ॥ नन्दगोप उस वज्रपातकी समान बचनको सुनकर
 बड़े दुःखी हुए और उनमें सच न रहा और वे उस सरोवरकी
 ओर दौड़े ॥ १८ ॥ उस समय बालक युवती वृद्ध और तरुण
 संकृर्षण यह सब पन्नगेन्द्रके क्रीडास्थलकी ओर दौड़े ॥ १९ ॥
 नन्दगोप आदि सब गोप आँखोंमें आँसू भर हाहाकार करते हुए
 उस सरोवरके समीप खड़े होगए ॥ २० ॥ वे सब विस्मित और
 वार २ शोकार्त होकर हा पुत्र ! और हाय ! हाय ! तथा

परे पुनः ॥ २१ ॥ अपरे हा हताः स्मेति रुदुर्भृशदुःखिताः ।
 क्षिग्रश्चैव यशोदा तां हा हतासीति चक्रुशुः ॥ २२ ॥ या पश्यसि
 पियं पुत्रं सर्पराजवशंगतम् । स्पन्दितं सर्पभोगेन कृष्यमाणं यथा-
 मृतम् ॥ २३ ॥ अरणसारमयं नूनं हृदयं ते विलक्ष्यते । पुत्रं कथ-
 मिमं दृष्ट्वा यशोदे नावदीर्यसे ॥ २४ ॥ दुःखितं वत पश्यामो
 नन्दगोपं हृदातिके । न्यस्य पुत्रमुखे दृष्टिं निश्चेतनमिव स्थितम् २५
 यशोदामनुगच्छन्त्यः सर्पावासमिदं हृदम् । मविशामो न यास्यामो
 व्रजं दामोदरं विना ॥ २६ ॥ दिवसः को विना सूर्यं विना चन्द्रेण
 का निशा । विना वेपेण का गावो विना कृष्णेन को व्रजः २७
 विना कृष्णं न यास्यामो विवत्सा इव धेनवः । तासां विलपितं
 श्रुत्वा तेषां च व्रजवासिनाम् । विलापं नन्दगोपस्य यशोदा-

धिक २ करने लगे ॥ २१ ॥ और कोई हाय ! मारे गए ! कह
 कर परम दुःखित हो रोने लगे और स्त्रियों यशोदासे कहने लगी
 कि-हाय ! तू मारी गई ॥ २२ ॥ कि जो तू अपने प्रिय पुत्रने
 सर्पराजके वशमें पड़ा हुआ और धैर्यसे कुछ च्युत हुआ और
 मरे हुएकी समान सर्पके वंशजमें पड कर खिचड़ता हुआ देख
 रही है २३ हे यशोदा ! तेरो हृदय तो पत्थरका ही बना हुआ है
 क्या ? जो पुत्रकी ऐसी दशा देख कर भी विदीर्ण नहीं होता है २४
 हम इस सरोवरके तट पर नन्दगोपको पुत्रके मुखकी ओर दृष्टि
 कर निश्चेतनकी समान बैठ कर दुःखित होते हुए देखते हैं २५
 हम तो यशोदाके पीछे २ इस सर्पके भवन इस सरोवरमें ही
 डूब जावेंगी और दामोदरके विना व्रजको न जावेंगी ॥ २६ ॥
 अरे ! सूर्यके विना दिन क्या और चन्द्रमाके विना रात्रि (की)
 क्या (शोभा) और वृषके विना गाँव क्या ? अर्थात् व्यर्थ
 है, इसी प्रकार कृष्णके विना व्रज व्यर्थ है ॥ २७ ॥ अरे !
 हम तो कृष्णके विना बल्लडेरहित गाँवकी समान व्रजमें न जावेंगी,

रुदितं तथा ॥ २८ ॥ एकभात्रशरीरज्ञ एकदेहो द्विधा कृतः ।
 संकर्षणस्तु संक्रुद्धो वभाषे कृष्णमन्ययम् ॥ २९ ॥ कृष्ण कृष्ण
 महावाहो गोपानां नन्दिवर्धन । दम्यतामेव वै क्षिप्रं सर्पराजो
 विषायुधः ॥ ३० ॥ इमे नो वांग्रयाभ्यात त्वां मत्वा मानुषं विभो ।
 परिदेवन्ति रुह्यं सर्वे मानुषबुध्रयः ॥ ३१ ॥ तच्छ्रुत्वा रोहि-
 ण्येयस्य वाग्यं संज्ञासमीरितम् । विक्रम्यास्फोटयद्बाहुं भित्वा
 तन्नागवन्धनम् ॥ ३२ ॥ तस्य पद्म्यामथाक्रम्य भोगराशिं जलो-
 त्थितम् । शिरः स कृष्णो जग्राह स्वहस्तेनावनाम्य च ॥ ३३ ॥
 तस्याकरोह सहसा गन्धमं तन्महच्छिरः । सोऽस्य मूर्ध्नि स्थितः
 कृष्णो ननर्त रुचिरांगदः ॥ ३४ ॥ मृद्यमानः स कृष्णेन शान्त-
 मूर्त्ता मुजंगमः । आस्यैः सरुधिरोद्धारैः कान्तो वाक्यमब्रवीत् ३५

उनके विलापको सुनकर और नन्दगेपके भी विलाप और
 यशोदाके रुदनको सुन कर ॥ २८ ॥ भाव और शरीरको एकसा
 जाननेवाले और एक देह (आत्मा) देने पर भी दो भागोंमें
 बटेहुए संकर्षण क्रोममें भरकर अच्युत श्रीकृष्ण से कहने लगे- २९
 कि-हे कृष्ण ! हे महाभुज कृष्ण !! हे गोपोंके आनन्द देनेवाले!
 इस विषायुध सर्पका आप दमन करिये ३० हे तात हे विभो !
 ये वांग्रय आपको मनुष्य मान कर दुःखित हो रहे हैं ३१ रोहिणी-
 पुत्रके स्पर्ण दिलाने वाले वाक्यको सुन कर कृष्णने नाग-
 बंधनको खोल कर अपनी भुजाओं पर थपेड़ा मारना आरंभ कर
 दिया ३२ तदनंतर श्रीकृष्णने उसके जलमें खड़े हुए शरीरको
 दबाया और अपने हाथसे उसके शिरको दबा कर उस पर
 चढ़ गए ३३ उस समय श्रीकृष्ण उसके निचले मस्तक पर चढ़
 गए ये फिर मनोहर वाज्रवन्द पहरने वाले श्रीकृष्ण उसके मस्तक
 पर खड़े २ नाचने लगे ३४ श्रीकृष्णके मर्दन करने पर वह
 मर्ष अपने शिरको शान्त करके खड़ा हो गया और अपने

अविज्ञानान्मया कृष्ण रोगोऽयं संप्रदाशितः । दमितोऽहं हतविषो
 वशगस्ते वरानन ॥ ३६ ॥ तदाज्ञापय किं कुर्यां सदा सापत्य-
 चान्धवः । कस्य वा वशतां यामि जीवितं मे मदीयताम् ॥ ३७ ॥
 पञ्चमूर्धानतं दृष्ट्वा सर्प सर्पारिकेतनः । अक्रुद्ध एव भगवान्
 मत्पुत्राचोरगेश्वरम् ॥ ३८ ॥ तवास्मिन् यमुनातोये नैव स्थानं
 ददाम्यहम् । गच्छार्णवजलं सर्प सभार्यः सह वान्धवः ॥ ३९ ॥
 यश्चेह भूयो दृश्येत स्थाने वा यदि वा जले । तव भृत्यस्तनूजो
 वा क्षिप्रं वध्यः स मे भवेत् ॥ ४० ॥ शिवं चास्य जलस्यास्तु
 त्वं च गच्छ महार्णवम् । स्थाने त्विह भवेद्दोषस्तवान्तकरणो
 महान् ॥ ४१ ॥ मत्पदानि च ते सर्प दृष्ट्वा मूर्धसु सागरे । गरुडः

मुखोंसे रुधिर ओकता हुआ कातर हो कहने लगा ॥ ३५ ॥
 हे कृष्ण ! मैंने अज्ञानतासे आपके ऊपर क्रोध किया था
 अब हे श्रेष्ठ मुखवाले ! अब मैं कुचल गया हूँ और मेरा विषभी हत
 (व्यर्थ) होगया है ३६ इसलिये अब आप आज्ञा दीजिये,
 कि-मैं क्या करूँ और मेरी सन्तान और वांधव भी आपका
 क्या कार्य करें, और मैं किसके वश में रहूँ आप मुझे जीवनदान
 दीजिये ३७ सर्पारिकेतन अर्थात् सर्पोंके शत्रु गरुडकी ध्वजावाले
 श्रीकृष्णने उस सर्पके पाँचों फनोंको नमो हुए देखा फिर भी कुछ
 भी क्रोध न करके उर्मोंके ईश्वर कालिपसे कहने लगे, कि-३८
 हे सर्प ! मैं तुम्हें यमुनाजीके जलमें कहीं नहीं रहने दूँगा हे सर्प!
 अब तू अपनी भार्या और वांधवोंको लेकर समुद्रके जलमें
 चला जा ३९ यदि अब तेरा कोई भृत्य वा पुत्र यमुनाके जलमें
 दीखेगा तो मैं शीघ्रतासे उसे मार डालूँगा ॥ ४० ॥ अब यह
 जल निर्मल होजाना चाहिये और तू भी महासमुद्रको चला जा,
 यदि तू यहाँ पर रहेगा तो तुम्हें मरणकी बड़ी भारी आपत्ति
 उठानी पड़ेगी ४१ और हे सर्प ! सर्पोंके शत्रु गरुड भी तेरे शिर

पन्नगरिपुस्तनयि न प्रहरिष्यति ॥ ४२ ॥ गृह्य मूर्त्ना तु चरणां
 कृष्णस्योरगपुङ्गवः । पश्यतामेव गोपानां जगामादर्शनं हृदात् ४३
 निर्जिते तु गते सर्पे कृष्णमुत्तीर्य धिष्ठितम् । विस्मितास्तुष्टुवुर्गो-
 पारचक्रुश्चैव प्रदक्षिणम् ॥ ४४ ॥ उच्युः सर्वे च मंघ्रीता नन्दगोपं
 वनेचराः । धन्योऽस्यनुगृहीतोसि यस्य ते पुत्र ईदृशः ॥ ४५ ॥
 अद्यमभृतिगोपानां गवां गोष्ठस्य चानघ । आपत्सु शरणं कृष्णः
 प्रभुरचायतलोचनः ॥ ४६ ॥ जाता शिवजला सर्वा यमुना मुनि-
 सेविता । तीरे चास्याः सुखं गावो विचरिष्यन्ति नः सदा ४७
 व्यक्तमेव वने जाता वयं यत् कृष्णमीदृशम् । महद्भूतं न जानी-
 मश्चन्नमग्निमिव वृजे ॥ ४८ ॥ एवं वै विस्मिताः सर्वे स्तुवन्तः

पर मेरे चरणोंके चिन्ह देख कर तुझ पर प्रहार न करूँगे ४२
 तब वह सर्पपुङ्गव श्रीकृष्णके दोनों चरणोंमें अपने शिरको मुका
 कर गोपोंके देखते २ क्षणभर में तालाबमेंसे गायब होगया ४३
 जब उस सर्पसे हरा कर भगानेके बाद श्रीकृष्ण जलमेंसे बाहर
 निकल कर खड़े होगए तब गोप परम विस्मित हुए और वे
 श्रीकृष्णकी परिक्रमा करके उनकी स्तुति करने लगे ४४ फिर
 सब वन चारी गोपोंने अपने मनमें प्रसन्न होकर नन्दगोपसे कहा
 कि-आपके ऐसे पुत्र है ! आप धन्य हैं (ईश्वरने) आप पर
 परम अनुग्रह किया है ॥ ४५ ॥ आजसे विशाल नेत्र प्रभु
 श्रीकृष्ण ही गौओंके गोपोंके और गोठोंके आपत्तिमें पड़ने पर
 हमारी रक्षा करनेवाले रहे ४६ अब इस मुनियोंसे सेवित यमुना
 जीका जल निर्मल होगया अब इसके तट पर हमारी गौएँ
 सुखपूर्वक विचरण करेगी ॥ ४७ ॥ हम वनमें उत्पन्न हुए हैं,
 इस लिये इन भस्ममें छिपी हुई अग्निकी समान ऐसे महात्मा
 श्रीकृष्णको हम वनमें रहनेके कारण न जान सके थे ४८ विस्मित
 हुए गोप इस प्रकार अच्युत श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए देव

कृष्णमन्वयम् । जग्मुर्गोपिगणा घोषं देवाश्चैनरथं यथा ॥ ४६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि

कालिपदमने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

वैशम्पायन उवाच । दमिते सर्पराजे तु कृष्णेन यमुना हृदे ।
तमेव चेरतुर्देशं सहितौ रामकेशवौ ॥ १ ॥ आजग्मतुस्तौ सहितौ
गोधनैः सह गापिनौ । गिरिं गोवर्धनं रम्यं वसुदेवसुताबुधौ २
गोवर्धनस्योत्तरतो यमुनातीरमाश्रितमूढदृशाते च तौ वीरौ रम्यं
तालवनं महत् ॥ ३ ॥ तौ तालपर्णमतते रम्ये तालवने रतौ ।
चेरतुः परमप्रीतौ वृषपोताविवोद्धतौ ॥ ४ ॥ स तु देशः सदा
स्निग्धो लोष्ठपापाणवर्जितः । दर्भमायस्थलीभूतः सुमहान् कृष्ण-
मृत्तिकः ॥ ५ ॥ तालैस्तैर्विपुलस्कन्धैरुच्छ्रितैः श्यामपर्वभिः ।

ताओंके चैत्ररथमें प्रवेश करनेकी समान व्रजमें प्रवेश करने
लगे ॥ ४६ ॥ वारहवों अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-श्रीकृष्णके द्वारा यमुनाजीके हृदमें
सर्पराज कालिपदा दमन होने पर राम और केशव उसी स्थान
पर विचरण करने लगे ॥ १ ॥ इसके अनन्तर वह वसुदेवके
दोनों पुत्र अपने गोधनके साथ घूमते २ रमणीय गोवर्धन पर्वत
पर आपहुँचे ॥ २ ॥ तदनन्तर उन वीरोंने गोवर्धनके उत्तरकी
ओर यमुनाजीके तट पर परम रमणीय एक तालवन देखा ३
तब वे दो उद्भूत बछड़ोंकी समान परम प्रसन्न होकर उस ताल
के पत्तोंसे छाये हुए रमणीय तालवनमें क्रीड़ा करने लगे ॥ ४ ॥
वह स्थान चिकना था और उसमें ढ़ेले और पत्थरका नाम नहीं
था और उसमें बहुत दूर तक दर्भ (कुशाँ) ही लग रही थी
और उस स्थानकी मट्टी काली थी ५ वह स्थान मोटे २ गुड़े
वाले और ऊपरकी उठी हुई श्याम गोंठों वाले और टहनियोंमें
फल लगे हुए तालके वृत्तोंके कारण ऐसा मतीत होता था मानों

दुराकृतिः । खरस्तालफलैः सार्धं पपात धरणीतले ॥२०॥ तं
 गतासुं गतश्रीकं पतितं वीक्ष्य गर्दभम् । ज्ञानीस्तथा परास्तस्य
 तृणराजनि सोऽक्षिपत् ॥ २१ ॥ सा भूर्गर्दभदेहैश्च फलैः पक्वैश्च
 पातिनैः । वभासे ह्यन्नजलदा श्रौरिवाव्यक्तशारदी ॥ २२ ॥
 तस्मिन् गर्दभदैत्ये तु सानुगे विनिपातिते । रम्यं तालवनं तद्वि
 भूयो रम्यतरं धर्मा ॥ २३ ॥ विप्रमुक्तभयं शुभ्रं विविक्ताकार-
 दर्शनम् । चरन्ति स्म सुखं गात्रस्तत्तालवनमुत्तमम् ॥२४॥ ततः
 प्रविष्टास्ते सर्वे गोपा वनविचारिणः । वीतशोका भयायासाश्चं-
 चूर्ध्वन्ते एव तद्वनम् ॥ २५ ॥ ततः सुखं प्रकीर्णासु गोषु नागेन्द्र-

की जंघा रुमर गर्दन और पीठ टूट गई और उसकी आकृति
 विगड़ गई और वह गधा अपने साथमें तालके फलोंके भी
 गिराता हुआ पृथ्वीमें गिर पड़ा ॥ २० ॥ उस गधेने प्राणरहित
 और शोभारहित हो पृथ्वीमें गिरते देख कर बलदेवजीने उसकी
 जातिके दूसरे गधोंके भी पेड़ पर पटक (कर मार) डाला २१
 उस समय तहाँकी भूमि गधोंके गिरे हुए देहोंसे और पड़े हुए
 तालके फलोंसे छाने पर ऐसी मतीत होती थी जैसे शरद ऋतु
 में बादलोंसे छाया हुआ आकाश अव्यक्तरूपमें दीखता है २२
 उस गर्दभ रूपधारी दैत्यके अनुचरोंसहित मारे जानेपर वह
 रमणीय तालवन और भी अधिक रमणीय लगने लगा ॥ २३ ॥
 उस समय तहाँ परका भय जाना रहा और स्पष्ट रूपसे देखा
 जाने लगा, और उस तालवनमें गाँवें सुखपूर्वक विचरण करने
 लगी ॥ २४ ॥ तदनन्तर वे सब वनविहारी गोप उस तालवन
 में घुम कर शोक और आयासरहित होकर चारम्बार घुमने
 लगे २५ तदनन्तर गधोंके सुखपूर्वक उस वनमें घुमने लगीं
 गध वे हाथीकी समान पराक्रमी दोनों बालक वृत्तोंके पत्तोंके

विक्रमौ । द्रुमपर्णासने कृत्वा तौ यथार्हं निपीदतुः ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि धेनुक-

वधो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

वैशम्पायन उवाच । अथ तौ जातहर्षौ तु वसुदेवसुताबुधौ ।

तत्तालवनमुत्सृज्य भूपो भांडीरमागतौ ॥१॥ चारयंतौ विद्वद्भानि

गोधनानि शुभानि च । स्फीतसस्यमरूढानि वीक्ष्यमाणौ वनानि

च ॥ २ ॥ च्चेडयन्तौ प्रगायन्तौ प्रचिन्वन्तौ च पादपान् ! नाम-

धिर्व्याहिरन्तौ च सवत्सा गाः परन्तपौ ॥ ३ ॥ नियोगपाशैरा-

सक्तैः स्कन्धाभ्यां शुभलक्षणौ । वनमालाकुलोरस्कां बालशृङ्गा-

त्रिवर्षभौ ॥४॥ सुवर्णाञ्जनचूर्णाभावन्योन्यसदृशाम्बरौ । महेंद्रा-

युधसंयुक्ती शुक्लकृष्णाविवांबुदौ ॥५॥ कुशाग्रकुसुमानां च कर्ण-

आसनों पर यथोचित रीतिसे बैठ गए ॥ २६ ॥ तेरहवाँ अध्याय

समाप्त ॥ १३ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-इसके अनन्तर हर्षमें भरे हुए वे

दोनों वसुदेवजीके पुत्र उस तालवनमेंसे फिर भाण्डीरवट पर

चले १ वे बड़े हुए गोधनको चराते हुए और सस्य फँले हुए

शुभ वनको देखते हुए (चलने लगे) २ वे शत्रुतापी दोनों ब लक

अपनी भुजाओं पर थाप लगाते हुए, गाते हुए और वृत्तों

के फलोंको एकत्रित करते हुए और गौओंको और उनके

बद्धोंको नाम ले कर बुलाते हुए (चलने लगे) ३ जैसे वन-

मालाओंसे विभूषित वनःस्थल वाले और छोटे २ सींगों वाले

अपभ शोभा पाते हैं, तैसे ही अपने कर्णों पर छीके डाल कर

चलते हुए वे दोनों शोभा पारहे थे ४ वे अञ्जन और सुवर्णके

चूर्णकी समान आभा वाले दोनों वसुदेव पुत्र एकसा वस्त्र पहरने

के कारण इन्द्रभनुष वाले काले और श्वेत इसप्रकार दो मेघोंकी

समान दीख रहे थे ५ वे दोनों जंगली वेष धारण करने वाले

पूरा मनोरमौ वनमार्गेषु कुर्वाणौ वन्यवेपथरावुभौद्गोवर्धनस्यानु-
चरौ वनेसानुचरौ तु तौ।चेरतुर्लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिरपराजितौ
तावेव मानुषी दीक्षां वहन्तौ सुरपूजितौ । तज्जातिगुणयुक्ताभिः
क्रीडाभिश्चेरतुर्नम ॥८॥ तौ तु भाण्डीरमाश्रित्य बालक्रीडानु-
वर्तिनौ । प्राप्तो परमशाखाढ्यं न्यग्रोऽशाखिनां वरम् ॥ ९ ॥
तत्र स्पन्दोलिकाभिश्च युद्धमार्गविशारदौ । अशमभिः क्षेपणी-
यैश्च तौ व्यायामकुर्वताम् ॥१०॥ युद्धमार्गैश्च विविधैर्गोपालैः
सहिनावुभौ । मुदितौ सिंहविक्रान्तौ यथामामं विचेरतुः ॥११॥
तयो रमयतोरेवं तल्लिप्सुरसुरोत्तमः । पलम्बोऽभ्यागमत्तत्र विद्रा-

बालक मार्गमें कुशाके अग्रभाग पर लगे हुए पुष्पोंसे मनोहर
कर्णफूल बनाते हुए चले जाते थे ६ वे अपराजित अपने अनु-
चरोंके साथ गोवर्धनके समीप लोकासिद्ध क्रीड़ाएँ करते हुए
विचरने लगे ॥ ७ ॥ वे सुरपूजित इस प्रकार मानुषी दीक्षाको
ग्रहण कर उस जातिके अनुरूप क्रीड़ा करते हुए वनमें विचरण
करने लगे ८ तदनन्तर वे दोनों बालक्रीडा करते २ अनेक
शाखाओं वाले वृक्षोंमें श्रेष्ठ भाण्डीर नामक वृक्ष पर आपहुँचे ९
तहाँ वे युद्धमार्गविशारद स्पन्दोलिका (भूलेरी समान हार्थोंको
आगे फेंकने) और गोफन फेंकर तथा (मुद्गर) हिलाकर
व्यायाम करने लगे १० वे सिंहकी समान पराकामी दोनों बालक
अपने गोपालोंके साथ प्रसन्न होकर नाना प्रकारके युद्धमार्गोंका
अभ्यास करने लगे ११ जब वह इसप्रकार क्रीड़ा कर रहे थे,
उस समय उनसे पाना चाहने वाला असुरोत्तम पलम्ब उनके
दोषसे दूढ़ता २ तहाँ आपहुँचा श्रुतिमें लिखा है, कि- 'विष्टम्भो
दिवो धरुणः पृथिव्या विश्वा उत त्तिनयो हस्ते अस्य । असत्त
उत्सोप वृणते नियुत्वान् गन्धो अंशु पथत इन्द्रियाय ।' अर्थात्
हे सोम! तुम ब्रह्मरक्षकके अंशकी समान अ ग पृथ्वीके धारण

न्वेपी तयोस्तदा ॥१२॥ गोपालवेपमास्थाय वन्यपुष्पनिभूषितः ।
 लोभयानः स तौ वीरौ हास्यैः क्रीडनकैस्तथा ॥ १३ ॥ सोऽव-
 गाहत निःशंकस्तेषां मध्यममानुषः । मानुषं वपुरास्थाय प्रलम्बो
 दानवोत्तमः ॥ १४ ॥ प्रकीडिताश्च ते सर्वे सह तं नागरारिणा ।
 गोपालत्रपुषं गोपा मन्गमानाः स्वर्वाभवम् ॥ १५ ॥ स तु च्छिद्रां-
 तरप्रेषुः प्रलम्बो गोपतां गतः । दृष्टिं प्रणिदधे कृष्णे रोहिण्ये

कर्ता रामरूपधारी शेर हैं, वह आप अन्तर्पापीसे प्रवाधित होने पर दीप्त होजाते हैं अत एव वह आपकी आज्ञा पालन करनेके लिये उत्कण्ठित होकर जगत्की प्राणवायु रूप सूत्रात्मा बनकर अपने स्वरूपका आपके वाक्यसे चिन्तन करते हैं अर्थात् मैं परमेश्वरसे अनन्य हूँ और देवकार्य करनेके लिये अनतीर्ण हुआ हूँ इसप्रकारकी आलोचना करते हैं, इस लिये वे अलोकके स्तम्भकी समान (विष्टम्भ) हैं वह प्रलम्ब आदिको उनका वध कर अपना पराक्रम प्रकट करनेके लिये जाते हैं, उनका आयुध क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर लिखा है, कि-सर्व कृति अर्थात् नाशसाधक आयुध इनके हाथमें ही रहते हैं, इस लिये उन्होंने अपनी मुठीसे ही उसको मार डाला । विष्णु सर्वदेवमय हैं अत एव यहाँ पर उनकी स्तुति सोमरूपमें की है) १२ प्रलम्बने गोपालका वेष धारण कर लिया था और वह वनके पुष्पोंसे निभूषित होरहा था, उस समय वह हास्य करके और खेल करके उन दोनों वीरोंको लोभमें डालना चाहने लगा ॥ १३ ॥ वह दानवोंमें श्रेष्ठ अमानुष प्रलम्ब मनुष्य शरीर धारण कर उनके मध्यमें निःशंक होकर घुस गया ॥ १४ ॥ सब गोपोंने उस गोपालवेपधारीको अपना बंधु गोपाल मान कर उस देव-शत्रुके माथ क्रीड़ाकी १५ वह प्रलम्ब गोपालवेप धारण कर कोई अवसर ढूँढना चाह रहा था, उसने बलराम और कृष्ण पर कर

च दाहणाम् ॥ १६ ॥ अत्रिपह्यं ततो गत्वा कृष्णमद्भुतविक्रमम् ।
 रोहिणोपवधे यत्नमकरोद्दानवोत्तमः । हरिणा क्रीडितं नाम बाल-
 क्रीडनकं ततः । प्रक्रीडितास्तु ते सर्वे द्वौ द्वौ युगपदुत्पतन ॥ १७ ॥
 कृष्णः श्रीदामसहितः पुंस्तुवे गोपसूनुना । संकर्षणस्तु प्लुतवान्
 प्रलम्बेन सहानघ ॥ १८ ॥ गोपालास्त्वपरं द्वन्द्वंगोपालैरपरैः
 सह । प्रदुना लंघयन्तो वै तेऽन्योन्यं लघुविक्रमाः ॥ २० ॥
 श्रीदाममजयत् कृष्णः प्रलम्बं रोहिणीसृतः । गोपालैः कृष्ण-
 पत्नीयैर्गोपालास्त्वपरं जिताः ॥ २१ ॥ ते बाहयन्तस्त्वन्योन्यं
 संहर्षात् सहसा द्रुताः । भाण्डीरस्कन्धमुद्दिश्य मर्षादां पुनराग-
 मन् ॥ २२ ॥ संकर्षणं तु स्कन्धेन शीघ्रमुत्क्षिप्य दानवः । द्रुतं
 जगाम विमुखः सचन्द्र इव तोयदः ॥ २३ ॥ स भारमसहंस्तस्य

दृष्टि की १६३स दानवश्रेष्ठने श्रीकृष्णको अत्रिपह्य मान कर बल-
 रामजीको मारनेका यत्न किया १७तदनन्तर श्रीकृष्ण बालक्रीड-
 नक नामक खेल खेलनेलगे तदनंतर वे सब दो २ मिल कर दौड़
 लगाने लगे १८श्रीकृष्ण गोपपुत्र सुदामाके साथ दौड़ लगाने लगे
 और हे निष्पाप! प्रलम्ब संकर्षणके साथ दौड़ लगाने लगे १९
 दूसरे गोपाल और २ गोपालोंके साथ दो २ का जोड़ बढ़ कर
 कुर्नीसे पराक्रम कर एक दूसरेको पीछे छोड़नेकी इच्छासे दौड़ने
 लगे २० श्रीकृष्णने श्रीदामाको जीत लिया और बलरामजीने
 रोहिणीपुत्र बलरामजीको जीत लिया और कृष्णके पत्नके दूसरे
 गोपालोंने दूसरे गोपालोंको जीत लिया २१ तदनन्तर वे सब
 जिनसे हारगए उन सबको हर्षमें भर अग्ने कंधेके ऊपर चढ़ा एक
 मर्षादा बाँध तहाँसे भाण्डीर पर आनेका नियम कर दौड़े २२बढ़
 दानव शीघ्रतासे संकर्षणको अग्ने कंधे पर धारण कर भागा उस
 समय वह उलटा मुख कर भागता हुआ चन्द्रमा बाला मेघसा
 भागता दीखता था २३बढ़ महाकाय राजस बुद्धिमान् रोहिणीपुत्र

रौद्रियोपस्य धीमतः । वृष्ट्रे सुमहाकायः शक्राकान्त इवाम्बुदः २४
 स भाण्डीरवटप्रख्यं दग्धाननगिरिमभम् । स्वं वपुर्दशोयामास
 प्रलम्बो दानवोत्तमः ॥ २५ ॥ पंचस्तवकयुक्तेन मुकुटेनार्कवर्चसा ।
 दीप्यमानाजनो दैत्यः सूर्पाक्रांत इवाम्बुदः ॥ २६ ॥ महानने
 महाश्रीवः सुमहानन्तकोपमः । रौद्रः शकटवक्रान्तो नामयंश्चरणौ-
 र्महीम् ॥ २७ ॥ स्रग्दामलम्बाभरणः मलंबाःस्वरभूषणः । वीरः
 मलम्बः पथयी लम्बतोय इवांबुदः ॥ २८ ॥ स जहाराध वेगेन
 रौद्रियोपं मद्वासुरः । सागरोपस्रवगतं कृत्स्नं लोकमिवांतकः २९
 द्वियभाणः मलंबेन स तु संकूर्पणो यभौ । उद्यमान इवाकाशो
 कालमेधेम चन्द्रमाः ॥ ३० ॥ स संदिग्धमिवात्मानं मेने संकूर्प-

के मारको न सह सकनेके कारण इन्द्रसे आक्रान्त हुए पर्वतकी
 समान फैलने लगा ॥ २४ ॥ फिर उस दानवश्रेष्ठ मलम्बने अपने
 शरीरको भाण्डीरवटकी समान और जले हुए अंजनगिरिकी
 समान बढ़ाया) दिवाया ॥ २५ ॥ उस समय उसके मुख पर
 पाँच कँगूरों वाला मुकुट लग रहा था उस समय सूर्यकी समान
 कान्ति वाले मुकुटसे गदीत मुख वाला दैत्य सूर्यसे दवे हुए
 वादूलकी समान दीख रहा था ॥ २६ ॥ चौड़े मुख वाला लम्बी
 गर्दन वाला और गाड़ीके पहियेके अक्षकी समान मुख वाला
 मलम्ब चरणोंसे पृथ्वीको दबाना हुआ (चलने लगा) ॥ २७ ॥
 उसके गलेमें लम्बीरमालाएँ पड़ी हुई थीं और वह लम्बे वस्त्रके
 आभूषणको धारण कर रहा था, इस प्रकार चलता हुआ वीर
 मलम्ब जल बरसाते हुए मेघकी समान प्रतीत होता था ॥ २८ ॥
 जैसे समुद्रमें डूबते हुए लोकको मलयके समय यमराज लेजाते
 हैं इसी प्रकार वह असुर बलदेवजीको वेगपूर्वक लेजाने लगा २९
 जैसे कालमेघ चन्द्रमाको उड़ाकर लेजाता है इसी प्रकार बलदेवजी
 भी राक्षसके उड़ कर भागने पर शोभा पाने लगे ॥ ३० ॥ उस

एस्तदा । दैत्यव्यन्धगतः श्रीमान् कृष्णं चेदमुवाच ह ॥ ३१ ॥
 द्वियेऽहं कृष्ण दैत्येन पर्वतोदग्रवर्षणा । प्रदर्शयित्वा महतीं मार्यां
 मानुषरूपिणीम् ॥ ३२ ॥ कथमस्य मया कार्यं शासनं दुष्टचेतसः ।
 प्रलम्बस्य प्रवृद्धस्य दर्पाद् द्विगुणवर्चसः ॥ ३३ ॥ तगाह सस्मितं
 कृष्णः साम्ना हर्षकलेन वै । अभिज्ञो रौहिण्यस्य वृत्तस्य च
 बलस्य च ॥ ३४ ॥ अहोऽयं मानुषो भावो व्यक्तमेवानुपालयते ।
 यस्त्वं जगन्मयं देवं गुह्याद् गुह्यतरं गतः ॥ ३५ ॥ स्मर नाराय-
 णात्मानं लोकानां त्वं विपर्यये । अवगच्छात्मनात्मानं समुद्राणां
 समागमे ॥ ३६ ॥ पुरातनानां देवानां ब्रह्मणः सलिलस्य च ।
 आत्मवृत्तप्रभावाणां संस्मराद्यं च नै पुनः ॥ ३७ ॥ शिरः त्वं ते

समय संकर्षणने अपनेको सन्देहमें समझा और दानवके कंधे
 पर बैठे २ उन्हींने श्रीकृष्णसे कहा, कि-॥ ३१ ॥ हे कृष्ण! यह
 पर्वतकी समान उग्र शरीर वाला अपनी बड़ी भारी मार्यासे
 गनुष्यका रूप धारण कर मुझ उड़ा कर लिये जाता है ॥ ३२ ॥
 यह प्रलम्ब बढ़ गया है और दर्पके कारण इसका तेज भी दुगना
 होरहा है अतः मैं इस दुरात्माको किस प्रकार दण्ड दूँ (यह
 बताइये) ॥ ३३ ॥ तब बलरामके वृन्तान्त और बलको
 जानने वाले श्रीकृष्णने मुस्कुरा कर बलरामजीसे हर्ष उपजाने
 वाली बात समझाते हुआ कहा, कि-॥ ३४ ॥ आहा! यह तो
 तुम गनुष्योंके सा भावको ही (स्पष्टरूपसे) दिखाने लगे, तुम
 जगत्में व्याप्त (आत्म-) देवके गुह्यसे गुह्य तत्त्वको जानतेहो
 और स्वयं तत्स्वरूप हो ३५ लोकोंके प्रलयके समयके अपने
 नारायणरूपका तुम विचार करो और समुद्रोंके संगिनिनके समय
 के अपने आत्माका विचार करो अर्थात् अपने प्रलयकालीन
 स्वरूपका स्मरण करो ३६ प्राचीन देवता ब्रह्मा जल और अपने
 शरीरों उत्पन्न करने वाले अपने स्वरूपका स्मरण करो ३७

जलं मूर्तिः ज्ञाना भूर्देहनो मुखम् । वायुर्लोक्यायुर्ब्रह्मासो मनः
 स्रष्टा ह्यभूत्तत्र ३८ सहस्रास्यः सहस्रांगः सहस्रचरणो जगत् ॥ सहस्रपद्म-
 नाभस्त्वं सहस्रांशुधरोऽरिहा ॥ ३६ ॥ यत्त्वया दर्शितं लोके तत्
 पर्यन्ति दिवोकसः । यत्त्वया नोक्तपूर्वं हि कस्तदन्वेष्टुमर्हति ४०
 यद्वेदितव्यं लोकेऽस्मिन्तत्त्वया समुदाहृतम् । विदितं यत्तवैकस्य
 देवा अपि न तद्विदुः ॥ ४१ ॥ आत्मजं ते वपुर्व्योम्नि न पर्यं-
 त्यात्मसंभवम् । यत्त ते कृत्रिमं रूपं तदर्चन्ति दिवोकसः ॥ ४२ ॥
 देवैर्न हृष्टरचास्ते तेनानन्त इति स्मृतः । त्वं हि सूक्ष्मो महानेकः
 सूक्ष्मैरपि दुरामदः ॥ ४३ ॥ त्वय्येव जगतः स्तम्भे शारवती

उस समय आकाश तुम्हारा शिर था और जल तुम्हारी मूर्ति
 थी और पृथ्वीकीसी ज्ञानता (सहजशीलता) तुममें थी और
 अग्नि तुम्हारा मुख था और संसारकी आयु वायु तुम्हारा उच्छ्वास
 था और तुम्हारा मन ही रचने वाला था ३८ उस समय तुम्हारे
 मुख चरण अंग और नेत्र अनन्त थे और हे अरिदमन ! तुम
 सैंकड़ों पद्मनाभ रूपमें विराजमान थे और तुमसहस्रों किरणोंको
 धारण कर रहे थे ३६ तुमने संसारमें जिस बातको दिखा दिया
 था उसी बातको देवता देख रहे हैं, जिस बातका तुमने (पहिले)
 वर्णन नहीं किया है उसका पता लगाने वाला और कोई नहीं
 है ४० इस संसारकी सारी जानने योग्य बातोंका तुमने उपदेश
 दे दिया है, जिस बातको तुम एक जानते हो उसको देवता भी
 नहीं जानते ४१ आत्मासे उत्पन्न हुए अपनेमें प्रकट तुम्हारे
 (आत्म) स्वरूपको (हृदय) आकाशमें (मूढ़ व्यक्ति) नहीं
 देख सकते और तुम्हारे कृत्रिम रूपकी ही देवता उपासना करते
 हैं ४२ देवताओंने भी तुम्हारा अन्त (पार) नहीं पाया है इस
 से तुम अनन्त कहलाते हो तुम केवल सूक्ष्मस्वरूप हो महत्स्वरूप
 हो सूक्ष्म भी आपको कठिनातासे पासकते है ४३ तुम जगत्के

जगती स्थिता । अचला प्राणिनां योनिर्धारयत्यखिलं जगत् ४४
 चतुः सागरयोनिस्त्वं चातुर्वर्ण्यविभागवित् । चतुर्षु गेशो लोकानां
 चातुर्होनफलाशनः ॥ ४५ ॥ यथाऽहमपि लोकानां तथा त्वं तच्च
 मे मतम् । उभावेकशरीरौ स्वो जगदर्थे द्विधाकृतौ ॥ ४६ ॥ अहं
 वा शाश्वतः कृष्णस्त्वं वा शेषः पुरातनः । लोकानां शाश्वतो
 देवस्त्वं हि शेषः सनातनः । आवयोर्देहमात्रेण द्विधेर्दं धार्यते
 जगत् ॥ ४७ ॥ अहं यः स भवानेव यस्त्वं सोऽहं सनातनः ।
 द्वावेव विहितौ द्वावामेकदेहौ महाबली ॥ ४८ ॥ तदास्ते मूढवत्त्वं किं
 प्राणो न जहि दानवमामूर्त्तिं देवरिपुं दैत्यं वज्रकण्पेन मुष्टिना ४९
 वीशम्पायन उवाच । संस्मारितस्तु कृष्णेन रौहिणेयः पुरात-

स्तंभरूप हो यह शाश्वती पृथ्वी तुममेंही प्रतिष्ठित रहती है और
 यह प्राणियोंकी योनि अचल पृथ्वी सम्पूर्ण जगत्को धारण
 कर रही है ४४ चारों समुद्र तुम्हारे ही स्वरूप है और तुम
 चातुर्वर्ण्य (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों) का विभाग करने
 वाले हो और तुम चारों युगोंमें मनुष्योंके चातुर्होनके फलका
 उपभोग करने वाले हो ४५ जैसे मैं ससारके लिये हूँ, इसी प्रकार
 तुम भी हो, यह मेरा मत है, हम दोनों एक आत्मा हैं और जगत्
 का हित करनेके लिये दो शरीरोंमें बँट गए हैं ॥ ४६ ॥
 मैं शाश्वत कृष्ण हूँ और तुम पुरातन शेष हो, तुम लोकोंके
 शाश्वत देव और सनातन शेष हो हम देहभेदसे इस जगत्को
 दो प्रकारसे धारण करते हैं ४७ जो मैं हूँ वह तुम हो और जो
 तुम हो मैं भी वही सनातन हूँ हम दोनों महाबली एक आत्मा
 हैं और दो देहोंमें विभक्त हैं ४८ इस लिये अब तुम मूढकी
 समान क्यों बँटे हुए हो अब तुम प्राणवत् लगा कर अपनी
 वज्रकी समान मुष्टिका देवताओंके शत्रुदानवके मस्तरु पर प्रहार
 करके उसको मार डालो ४९ वीशम्पायनजीने कहा, कि-जब

नम् । बलेनापूर्यत तदा त्रैलोक्यान्तरचारिणा ॥५०॥ ततः प्रलंबं
दुर्वृत्तं बुबुधे स महाभुजः । मुष्टिना वज्रकण्ठेन मर्धिन चैनं समा-
हनत् ॥५१॥ तस्योत्तमांगं स्वे काये विकपालं चित्रेश ह । जानुभ्यां
चाहतः शोते गतासुदर्शनवोत्तमः ॥ ५२ ॥ जगत्यां विप्रकीर्णस्य
तस्य देहो बभौ तदा प्रलम्बस्यावरस्थस्य मेघस्येव विदीर्यतः ५३
तस्य भ्रमोत्तमांगस्य देहात् सुसूत्र शोणितम् । बहुगैरिकसंपुक्तं
शैलशृङ्गादिवोदकम् ॥ ५४ ॥ तं निहत्य प्रलम्बन्तु संहृत्य बल-
यात्मानः । पर्यष्वजत वै कृष्णं रोहिण्यः प्रतापवान् ॥ ५५ ॥
तं तु कृष्णश्च गोपाश्च दिविस्थाश्च दिवोकसः । तुष्टुवुर्निहते
दैत्ये जयाशीर्भिर्महाबलम् ॥ ५६ ॥ बलेनापं हतो दैत्यो बालेना-

श्रीकृष्णने बलदेवजीको उनके प्राचीन रूपका स्मरण दिलाया
तब उनमें त्रिलोकीमें वर्तमान (सारा) बल आगया ५० तद-
नन्तर उक्त महाभुजने अपनी वज्रकी समान मुठी बाँध कर उस
दुराचारी प्रलम्बके मस्तक पर प्रहार किया ५१ तब तो उसका
शिर उसके शरीरमें ही घुस गया और उसकी खोपड़ी ही बाकी
रह गई और वह राक्षस घुटनोंके बल पृथ्वीमें गिरकर मर गया
जैसे आकाशमें निचर चितर पड़ा हुआ मेघ दिखाई देता
है, इसी प्रकार पृथ्वीमें फैल कर पड़ा हुआ दानवोत्तम प्रलम्ब
दिखाई देता था ५३ जैसे पर्वतके शिखरपरसे गेरू मिला जल
बहता है तैसे ही उस टूटे हुए शिर वाले राक्षसके शरीरमेंसे
रुधिर बहने लगा ५४ प्रलम्बके मारनेके बाद बलदेवजीने अपने
बलको घटा लिया, फिर वह रोहिणीनन्दन श्रीकृष्णसे जाकर
निपट गए ५५ दैत्यका संहार करनेके अनन्तर कृष्ण गोप
और स्वर्गमें विराजमान देवता भी बलदेवजीकी स्तुति करने
लगे ५६ उस समय देवताओंकी कहीं हुई आकाशवाणियों कहने
लगीं कि-इस सरल कर्म योग्य बाल होने बलपूर्वक इस दैत्यको

विलष्टकर्मणा । विवदन्त्यशरीरिण्यो वाचः सुरसमीरिताः ५७
 बलदेवोत नामास्य देवीरुक्तं दिवि स्थितैः । बलं तु बलदेवस्य
 तदा भुवि जना विदुः ॥ ५८ ॥ प्रलम्बे निहते दैत्ये देवैरपि
 दुरासदे ॥ ५९ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि शिशुचर्यायां
 प्रलम्बवधो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

वैशम्पायन उवाच । तयोः प्रवृत्तयोरेवं कृष्णस्य च बलस्य

मार डाला है ५७इस लिये स्वर्गमें देवताओंने इसका नाम बल-
 देव रक्खा है, देवताओंसे भी दुरासद प्रलम्बके मारे जाने पर
 पृथ्वीके मनुष्य बलदेवजीके बलको जानने लगे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

चौदहवाँ अध्याय समाप्त १४

(इस अध्यायमें श्रीर अगले अध्यायमें गोवर्धनोद्धारलीला
 का वर्णन है । श्रुतिमें लिखा है, कि—“आग्रावभिरहन्येभिरवतु-
 भिर्नरिष्टं व्रजमाजिग्रति मागिनि । शतं वा यस्य प्रचरन् स्वे दमे
 संवर्तयन्तो विवर्तयन्नेति” जिसके (दम) घरमें सैंकड़ों वायुओं
 से अधिक संवर्तन करने वाले अर्थात् प्रलय करने वाले मेघ फिरते
 हैं । उस इन्द्रने पत्थरोंके यज्ञकी पूजाके योग्य (अर्थात् अहन्य)
 होने पर मागी अर्थात् मायाके द्वारा मनुष्य बने हुए श्रीकृष्णके
 ऊपर व्रजमें श्रेष्ठ (वरिष्ठ) वज्र वाली वृष्टि बरसाई थी, क्यों कि-
 वह मागी ईश्वर यज्ञको विपरीत करना चाहिते थे । अर्थात् इन्द्र-
 यागके लिये लाई हुई सामग्रियोंसे वह गिरियाग कराने लगे थे
 इस लिये इन्द्रने व्रज पर सात दिन घोर वर्षा बरसाई थी । यह
 बात पुराणोंमें मसिद्ध है । मंत्रमें लिखा है, कि इन्द्रके घरमें मेघ
 फिरते थे इसका तात्पर्य यह है, कि—“वायुर्वेन्द्रो वा अन्तरिक्षस्था-
 नम्” अर्थात् श्रुतिमें कहा है, कि—वायु वा इन्द्र अन्तरिक्षस्थानीय
 हैं ।) वैशम्पायनजीने कहा, कि—श्रीकृष्ण और बलरामको वन

च । वने विचरतोर्मासौ व्यतीयातौ स्म वार्षिकौ ॥ १ ॥ ब्रज-
 मान्मत्तुस्तौ तु ब्रजे शुश्रुवतुस्तदा । प्राप्तं शक्रमहं वीरौ गोपा-
 श्चोत्सवलालसान् ॥ २ ॥ कौतूहलादिदं वाक्यं कृष्णः मोवाच
 तत्र तान् । कोऽयं शक्रमहो नाम येन वो हर्षं आगतः ॥ ३ ॥
 तत्र वृद्धतपस्त्वेको गोपो वाक्यमुवाच ह । श्रुगतां तात शक्रस्य
 यदर्थं ध्वज इज्यते ॥ ४ ॥ देवानामीश्वरः शक्रो मेवानां चारि-
 सुदन । तस्य चायं पत्न्यः कृष्ण लोकनाथस्य शाश्वतः ॥ ५ ॥
 तेन संबोदिता मेवास्तस्य चायुधभूषिताः । तस्यैवाज्ञाकराः सस्यं
 जनयन्ति नवांशुभिः ॥ ६ ॥ मेघस्य पगसो दाता पुरुहूतः पुर-
 न्द्रः । संपहृष्टः स भगवान् प्रीणयत्यखिलं जगत् ॥ ७ ॥ तेन
 संपादितं सस्यं वयमन्ये च मानवाः । महोत्सवं प्रयुञ्जानास्तर्पया-

में विचरते २ वर्षा ऋतुके दो महीने बीत गए ॥ १ ॥ वे दोनों
 वीर जब ब्रजमें लौटे तो उन्होंने सुना कि-इन्द्रोत्सवका दिन
 आगया है और गोप उत्सव मनानेके लिये उत्कण्ठित हैं ॥ २ ॥
 उस समय कृष्णने कौतूहलमें होकर उनसे कहा, कि यह इन्द्रो-
 त्सव क्या वस्तु है, कि जिसके कारण तुम ऐसे हर्षमें भर रहे
 हो ॥ ३ ॥ तब एक वृद्ध गोपने यह बात कही कि-हे तात ! इन्द्र
 की ध्वजाका जिस कारण पूजन किया जाता है उसको तुम
 सुनो ॥ ४ ॥ हे शत्रुओंको उत्पीड़ित करने वाले श्रीकृष्ण ! इन्द्र
 देवताओंके ईश्वर हैं और मेवोंके भी ईश्वर हैं हे कृष्ण ! ऐसे
 लोकनाथ इन्द्रका ही यह यज्ञ शाश्वत (सर्वदा) से होता आरहा
 है ॥ ५ ॥ उनके प्रेरणा करने पर उनक आयुध (वज्रों) से
 भूषित उनकी आज्ञामें चलने वाले मेव नया जल वरसा कर अन्न
 को उत्पन्न करते हैं ॥ ६ ॥ पुरुहूत इन्द्र मेघ लाने वाले और जल
 वरसाने वाले हैं, वह भगवान् प्रसन्न होने पर सारे जगत्को
 वृत्त करते हैं ॥ ७ ॥ हम तथा दूसरे मनुष्य उनके दिये हुए अन्न

मश्च देवताः ॥ ८ ॥ देवे वर्षन्ति लोकेऽस्मिंस्ततः सस्यं प्रवर्षते ।
 पृथिव्यां तर्पितायान्तु सामृतं लक्ष्यते जगत् ॥ ९ ॥ क्षीरवत्प-
 स्त्विषा गात्रो वत्सवत्पश्च निर्दृताः । तेन संवर्षिता गावस्तृणैः
 पुष्टाः सपुङ्गवाः ॥ १० ॥ नासस्या नातृणा भूमिर्न बुभुक्षादितो
 जनः । दृश्यते यत्र दृश्यन्ते वृष्टिमन्तो बलाहकाः ॥ ११ ॥ दुदोह
 सवितुर्गा वै शको दिव्याः पयस्विनीः । ताः क्षरन्ति नवं क्षीरं
 मेघ्यं मेघौघधारितम् ॥ १२ ॥ वाटवीरितं तु मेघेषु करोति निनदं
 मद्दत् । जयेनावर्तितं चैव गर्जतीति जना विदुः ॥ १३ ॥ तस्य

से जीवित रहते हैं अत एव महोत्सव करके देवताओंको तृप्त करोगे ॥ ८ ॥ देव (राज इन्द्र) के वरसने पर अन्न उत्पन्न होता है और (जलसे) पृथिवीके तृप्त होने पर सब जगत् अमृत-मय (जलपय) दीखने लगता है ॥ ९ ॥ और वत्स वाली गीओं का दूध बह जाता है और वे सुखमें होजाती है और तृण खाकर बैल और गौएँ भी पुष्ट होजाती हैं ॥ १० ॥ जिस देशमें वर्षा वरसाने वाले मेघ दीखते हैं, उस देशमें भूमि अन्नरहित और तृणरहित नहीं दीखती है और कोई मनुष्य भूखा नहीं दीखता है ॥ ११ ॥ इन्द्र सूर्यकी पय देने वाली (गौओं) किरणोंको दुहता है, वे मेघोंके धारण किये हुए पवित्र और नवीन (क्षीर) जलको वरसाती है (तात्पर्य यह है, कि हमारी प्राणसे सहायता पाने वाली जठराग्नि जैसे जलका शोषण करती है और वह जल बलसाय कर्म करने पर रोमकूपोंके द्वारा पस्वेद रूपसे निकलता है इसी प्रकार वायुकी सहायतासे सूर्य भूमि आदिमें वर्तमान जलको सोख लेना है वह इन्द्रके द्वारा बलसाध्य निरन्तर भ्रमणरूप कार्यमें प्रयुक्त होकर किरणोंके द्वारा चर्मकोशरूप मेघोंमें बमन करता है उन मेघोंको भेद कर इन्द्र वर्षा वरसाया करता है) १२ वह मेघोंके वायुके मेरणा करने पर निनाद करता है और

चैवोद्यमानस्य वायुयुक्तैर्वलाहकैः । वज्राशनिसपाः शब्दाः श्रुयंते
 नगभेदिनः ॥ १४ ॥ तज्जलं वज्रनिष्पेषैर्विमुञ्चन्ति नभोगतैः ।
 बहुभिः कामगैर्मघैः शक्रो भृत्यैरिवेश्वरः ॥ १५ ॥ क्वचिद्दुर्दि-
 नसंकाशैः क्वचिच्चिन्नाभ्रसंनिभैः । क्वचिच्चिन्नांजनाकारैः क्वचि-
 च्छीकरवर्षिभिः ॥ १६ ॥ मण्डयन्तीव देवेन्द्रो विश्वमेवं नभो-
 घनैः । क्वचिच्छीकरमुक्ताभं कुरुते गगनं घनः ॥ १७ ॥ एवमेतत्
 पयो दुग्धं गोभिः सूर्यस्य वारिदः । पर्जन्यः सर्वभूतानां भवाय
 ध्रुवि वर्षति ॥ १८ ॥ यस्मात् प्राट्ठदियं कृष्ण शक्रस्य तु विभाविनी ।
 तस्मात् प्राट्ठपि राजानः सर्वे शक्रं मुदायुताः । महैः सुरेशमर्चति
 वयमन्ये च मानवाः ॥ १९ ॥ पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

जब वेगसे शब्द करता है, तब मनुष्य कहते हैं, कि इन्द्र गर्जना
 कर रहा है १३ जब वायु वाले मेघोंको लेकर उद्यत होजाता है
 तब उसके पर्वतको भी फोड़ देने वाले वज्र और अशनिकी
 समान शब्द होने लगते हैं १४ जैसे कोई अपने भृत्योंसे काम
 लेता है तैसे ही वह आकाशमें विराजमान वज्रसे पिसने वाले
 कामचारी मेघोंसे जल बरसाया करता है १५ इन्द्र कभी दुर्दिन
 की समान मेघोंको रच कर और कभी च्छिदके हुए मेघोंको रच
 कर और कभी पिसे हुए अञ्जनकी समान काले मेघोंको रच कर
 इसप्रकार देवेन्द्र सारे आकाशको मण्डितसा कर देते हैं और कभी
 गगन सीकर और मुक्ताकी समान मेघोंकी आभा बनादेते हैं १७
 (इन्द्र) इस प्रकार सूर्यकी गौश्यों (किरणों) से पय (जल)
 दुहा करता है, फिर जल देने वाला पर्जन्य संसारका कवचाण
 करनेके लिये पृथ्वी पर वर्षा बरसाया करता है १८ हे कृष्ण !
 यह वर्षा ऋतु शक्रका पूजन करनेके लिये है अत एव वर्षा ऋतु
 में सब राजे प्रसन्न होकर उत्सव करके इन्द्रकी पूजाकिया करते,
 हैं, यह बात हमभी करते हैं तथा दूसरे मनुष्य भी किया करते हैं १९

दशम्पायन उवाच । गोपवृद्धस्य वचनं श्रुत्वा शक्रपरिग्रहे ।
 प्रभावज्ञोपि शक्रस्य वाक्यं दामोदरोऽब्रवीत् ॥ १ ॥ वयं वन-
 चरा गोपाः सदा गोधनजीविनः । गात्रोऽस्मद्दैवतं विद्वि गिर-
 यश्च वनानि च ॥ २ ॥ कर्षुकाणां कृपितृन्तिः पण्यं विपणि-
 जीविनाम् । गात्रोऽस्माकं परा वृत्तिरेतत्त्रैविद्यमुच्यते ॥ ३ ॥
 विद्यया यो यया युक्तस्तस्य सा दैवतं परम् । सैव पूज्याऽर्चनीया
 च सैव तस्योपकारिणी । योऽन्यस्य फलपश्नानः करोत्यन्यस्य
 सत्क्रियाम् ॥ ४ ॥ द्वावनर्थो स लभते प्रेत्य चेह च मानवः ।
 कृष्यन्ता प्रथिता सीमा सीमान्तं प्रथितं वनम् ५ वनान्ता गिरयः
 सर्वे सा चास्माकं गतिर्बुधा । श्रूयन्ते गिरयश्चापि वनेऽस्मिन्

दशम्पायनजीने कहा, कि-गोपवृद्धके इन्द्रके उत्सव करनेके विचारको सुन कर दामोदर इन्द्रके प्रभावको जानते थे तब भी उन्होंने कहा कि-१ हम वनमें विचरण करने वाले गोप हैं और सदा गोधनसे अपनी आजीविका चलाने हैं अतः गौ पर्वत और वनोंकोही हमें अपना देवता समझना चाहिये २ किसानोंका कृषि जीवन है और विक्रीकी वस्तु दूकानदारोंका जीवन है और गाँवों हमारा परम जीवन है यह वार्तारूप विद्याके तीन भेद हैं ३ जो जिस विद्यासे काम लेता है उसके लिये वही विद्या परमदेवतारूप है उसके लिये वही पूज्य अर्चनीय और उसका उपकार करने वाली है जो दूसरेका फल खाकर दूसरेका सत्कार करता है ४ वह मनुष्य इस लोकमें और मरनेके बाद परलोकमें भी दो अन्तर्गौरव पायी होता है कृषि वाली सीमा प्रशस्त होती है और सीमा वाला वन प्रशस्त होता है ५ और जिनके समीप में वन होता है ऐसे पर्वत प्रशस्त (श्रेष्ठ) होते हैं और वह हमारी निश्चित गति हैं और हमने सुना है, कि-इस वनमें पर्वत इन्द्रानुसार रूप धारण कर लिया करते हैं और वे अनेक रूपों

कामरूपिणः । प्रविश्य तांस्तांस्तनवो रमन्ते स्वेषु सानुषु ॥६॥
 भूत्वा केसरिणः सिंहा व्याघ्राश्च नखिनां वराः । वनानि स्वानि
 रत्नानि वासयन्तो वनच्छिद्रः ॥ ७ ॥ यदा चैषां विकुर्वन्ति ते
 वनालयजीविनः । ध्वन्ति तानेव दुर्वृत्तान् पौरुषादेन कर्मणा न
 मन्त्रयज्ञरा विमाः सीतायज्ञाश्च कर्पुकाः । गिरियज्ञास्तथा गोपा
 इज्योऽस्माभिर्गिरिवने ॥ ६ ॥ तन्मह्यं रोचते गोपा गिरियज्ञः
 पर्वतताम् । कर्म कृत्वा सुखस्थाने पादपेऽप्यथवा गिरौ ॥ १० ॥
 तत्र हस्वां पशुन् मेध्यान् वितत्पायतने शुभे । सर्वघोपस्य सन्देहः
 क्रियतां किं विचार्यते ॥ ११ ॥ तं शरत्कुसुमापीडाः परिवार्य
 प्रदक्षिणम् । गानो गिरिवरं सर्वास्ततो यान्तु पुनर्व्रजम् ॥१२॥

को धारण कर अपने शिखरों पर भ्रमण करते रहते हैं ६
 वे केसर वाले सिंह और नाखूनधारियोंमें श्रेष्ठ व्याघ्र वन कर
 वनको काटने वाले प्राणियोंको व्रत कर अपने वनोंकी रक्षा
 करते रहते हैं ॥७॥ जब वनालय (भील आदि) और वनजीवी
 (गोप तत्र) आदि इन वनोंमें विकार (उपद्रव) मचाते हैं तब
 उन दुष्ट पुरुषोंको वे सिंहकी सपान कर्म (मनुष्यभक्षण)
 करके उनको मार डालते हैं ॥८॥ विम मन्त्रयज्ञमें परायण रहते
 हैं और कृपक सीतायज्ञमें परायण रहते हैं अर्थात् लालिपदति
 की पूजा करते रहते हैं और गोप गिरियज्ञ हैं अत एव
 हमें वनमें पर्वतकी पूजा करनी चाहिये ६ हे गोपों ! इस लिये
 मुझे गिरियज्ञ अर्थात् पर्वतका पूजन करनी प्रथा चलानी
 चाहिये, यह पूजा हमें सुखदायक वृत्त अथवा पर्वत पर (कर्म)
 पूजन करके चलानी चाहिये १० मखडप आदि वना कर तहाँ
 पर उस शुभ मखडपमें पवित्र पशुओंका बलिदान करना चाहिये,
 अब तुम विचार क्या कर रहे हो, सब ग्रामको इकट्ठा करो और
 उनसे (चन्दा) दुहो ॥ ११ ॥ तब शरत् ऋतुके कुसुमके आपीड

मासा क्लियं हि गवां स्वादुतोयवृणा गुणैः । शरत्प्रमुदिता रम्या
 गतमेघजलाशया ॥ १३ ॥ प्रियकैः पुष्पितैर्गौरं श्यामवाणा-
 सनैः क्वचित् । कठोरवृणमाभाति निर्मयूररुतं वनम् ॥ १४ ॥
 विजला विमला व्योम्नि विवलाका विविद्यतः । विवर्धन्ते जल-
 धरा विदन्ता इव कुञ्जराः ॥ १५ ॥ पटुना मेघनादेन नवतोयानु-
 कर्षिणा । पर्णोत्करघनाः सर्वे प्रसादं यान्ति पादपांः ॥ १६ ॥
 सितवर्णाम्बुदोष्णीपं हंसचामरवीजितम् । पूर्णचन्द्रमलच्छन्नं
 साभिपेकमित्राम्बरम् ॥ १७ ॥ हंसैः प्रहसितानीव समुत्कृष्टानि
 सारसैः । सर्वाणि तनुतां यान्ति जलानि जलदत्तये ॥ १८ ॥
 चक्रवाकस्तनतटाः पुलिनश्रोणिमण्डलाः । हंसलक्षणहासिन्यः

वाली गौएँ उस पर्वतश्रेष्ठकी, प्रदक्षिणा करके ब्रजको फिर लौट
 आवेँ १२ अब गौओंके लिये स्वादिष्ट जल और वृण देने वाली
 शरद् ऋतु आ गई है, यह अपने गुणोंसे प्रसन्न और रमणीय
 रहती है, इसमें मेघ जलाशय (समुद्र) पर चले जाते हैं १३
 इस समय वन कदम्बके पुष्पोंसे गौरवर्णका प्रतीत होता है और
 वाणासनोंसे अर्थात् भ्रिण्टीपुच्छोंसे श्वेत भी प्रतीत होता है
 और वनके वृण कठोर होगए और मयूरोंने घोलना भी
 बन्द कर दिया है ॥ १४ ॥ इस समय आकाशमें जलरहित
 निर्मल और बलाका (अशनिरहित) और विजलीरहित मेघ
 दन्तहीन हावियोंकी समान बढने हैं ॥ १५ ॥ नवीन जललाने
 वाले पटुनासे होने वाले मेघनादसे पर्णोंके निकलनेसे घने हुए
 वृत्त प्रसन्न हो रहे हैं १६ ॥ इस समय श्वेत वादलोंकी पगड़ी
 धारण करने वाला और हंसरूपी चामरोंसे डुलाया जाता हुआ
 और पूर्ण चन्द्ररूपी निर्मल वन वाला आकाश अभिषिक्तसा
 प्रतीत होता है १७ इस समय शरदऋतुमें हंसोंसे मुस्कराते हुए
 और सारसोंसे उत्कृष्ट सब जल तनुता (सुडौलपन) को

पतिं यान्ति समुद्रगाः ॥ १६ ॥ कुमुदोत्फुल्लमुद्रकं ताराभिश्चित्र-
मम्बरम् । सममभ्युत्समगन्तीव शर्वरीष्वितरेतरम् ॥ २० ॥ मत्त-
क्रौंचावघुष्टेषु मत्तमातङ्गपाण्डुषु । निर्विष्टरमणीयेषु वनेषु रमते
मनः ॥ २१ ॥ पुष्करिण्यस्तडागानि वाप्यश्च विकचोत्पलाः ।
केदाराः सरितश्चैव सरांसि च त्रिपाञ्ज्वलन् ॥ २२ ॥ पंकजानि
च ताम्राणि तथान्यानि सितान्यपि । उत्पलानि च नीलानि
भेजिरे वारिजां श्रियम् ॥ २३ ॥ मदं जहुः सितापाङ्गा मन्दं
वद्वधिरेऽनिलाः । अभवद् व्यभ्रमाकाशमभूच्च निभृतोऽर्णवः २४
ऋतुपर्यायशिशिलैर्द्वचतृत्पसमुज्जिभर्तैः । मयूरांगुस्त्रैर्भूमिर्वहुनेत्रैव
लक्ष्यते ॥ २५ ॥ स्वर्पंकमलिनीस्तोरैः काशपुष्पलताकुलैः । हंस-

पाप्त होरहे हैं १८ इस समय चक्रवाकरूपी स्तन तट वाली और
पुलिनरूपी श्रोणिमण्डल वाली और हंसोंकी समान हंसनेवाली
समुद्रगामिनी नदियें अपने पति समुद्रके पास चली जा रही
हैं १६ शरत्कालीन रात्रियोंमें खिले हुए कुमुदों वाला जल और
तारोंसे चित्रित आकाश यह दोनों परस्पर स्पर्शासी कर रहे
हैं २० विवाहितकी समान रमणीय धान्यमञ्जरीके पाकसे पीले
पड़े हुए (पीठों) पर बैठ कर शब्द करने वाले क्रौंचोंके घोष
करनेसे कलकल करते हुए रमणीय वनोंमें मन लग जाता है २१
इस समय वावड़ी तडाग और विकच कमल व्यारियों नदियें
और सरोवर लक्ष्मीसे दिप रहे हैं २२ इस समय लाल कमल
और दूसरे स्वेतकमल और नीले कमल जलसम्बन्धी शोभाको
धारण कर रहे हैं २३ इस समय मयूरोंमें मद जाता रहा है
और मन्द २ पवन चलने लगा है और आकाश बादलोंसे शुन्य
होगया है और आज कल समुद्र पूर्ण रहता है ॥ २४ ॥ वर्षा
ऋतुके बदलनेसे शिथिल हुए और नृत्य समाप्त करनेके अन-
न्तर गिरे हुए मोरोंके पंखोंसे भूमि अनेक नेत्रों वाली मालूम पड

सारसविन्यासैर्यमुना भाति शोभना ॥ २६ ॥ कलमापाकरम्येषु
 केदारेषु वनेषु च । सस्यादा जलगादारच मत्ता विरुहवुः खगाः २७
 सिपिचुर्षानि जलदा जलेन जलदागमे । तानि सस्यान्यवालानि
 कठिनत्वं गतानि वै ॥ २८ ॥ त्यक्त्वा मेघमयं वासः शरद्गुण-
 विदीपितः । एष वै विमले व्योम्नि हृष्टो वसति चन्द्रमाः २९
 क्षीरिण्यो द्विगुणं गावः प्रमत्ता द्विगुणं वृषाः । बनानां द्विगुणा
 लक्ष्मीः सस्यैर्गुणवती गद्दी ॥ ३० ॥ ज्योतीषि घनभुक्तानि पद्म-
 वन्ति जयानि च । मनांसि च मनुष्याणां प्रसादमुपयान्ति वै ३१
 असृज्यत् सविता व्योम्नि निर्मुक्तो जलदैर्भृशम् । शरत्प्रज्वलितं
 तेजस्तीक्ष्णरश्मिर्विशोपयन् ॥ ३२ ॥ नीराजयित्वा सैन्यानि

रही है ॥ २५ ॥ आज कल काश पुष्प और लताओंसे घिरे हुए
 तथा अपनी कॉपसे मलिन तटोंके कारण और यत्र तत्र बैठे
 हुए हंस और सारसोंसे यमुना बड़ी शोभायमान लग रही है २६
 इस समय पकने पर रमणीय दीखते हुए वन और क्यारियोंमें
 मदमत्त हुए जलमें उत्पन्न हुए पदार्थोंका भक्षण करने वाले
 और सस्योंका भक्षण करने वाले पक्षी मत्त होकर मनोहर शब्द
 कर रहे हैं २७ वर्षा ऋतुमें मेघोंने जिनको जलसे सेवा, या वे
 तरुण धान्य इस समय कठिन होगए हैं ॥ २८ ॥ यह शरद्
 ऋतुके गुणोंसे विदीपित और मेघमें रहना छोड़ने वाला चन्द्रमा
 निर्मल आकाशमें प्रसन्नतासे वस रहा है २९ इस समय गौएँ
 दुग्ना दूध देने लगी हैं और वृषभ दुग्ने मत्त होगए हैं और
 वनोंकी शोभा दुग्नी होगई है और पृथिवी सस्योंसे गुणवती
 होरही है ॥ ३० ॥ अब मेघोंने ज्योतियोंको भोग लिया (अतः
 वे स्पष्ट दीखने लगी हैं) और जलोंमें कमल निकल आये हैं
 और मनुष्योंके मन भी प्रसन्न होरहे हैं ३१ इस समय मेघोंसे
 मुक्त हुआ सूर्य अपने शरद् ऋतुके कारण प्रज्वलित हुए तेजकी

प्रयान्तु विजिगीषवः । अन्योन्यराष्ट्राभिसुखाः पार्विवाः पृथिवी-
 क्षितः ॥ ३३ ॥ बन्धुजीवाभिताम्रासु वद्वर्षकवतीषु च । मन-
 स्तिष्ठति कान्तासु चित्रासु वनराजिषु ॥ ३४ ॥ वनेषु च निरो-
 जन्ते पादपा वनशोभिनः । असनाः सप्तपर्णाश्च कोविदाराश्च
 पुष्पिताः ॥ ३५ ॥ इपुसादा निकुम्भाश्च प्रियकाः स्वर्णकास्तथा ।
 सुमराः पेषुकाश्चैव केतक्यश्च सपन्ततः ॥ ३६ ॥ व्रजेषु च
 विशेषेण गर्गरोद्गारहासिषु शरत्प्रकाशयोपेव गोष्ठेष्वटति रूपिणी
 नूनं त्रिदशभूमिष्ठं मेघकालसुखोपितम् । पतत्रिकेतनं देवं बोध-
 यन्ति दिवांरुसः ॥ ३७ ॥ शरद्वेव सुसस्थायां प्राप्तायां प्रावृषः
 क्षये । नीलचन्द्रार्कवर्णश्च रचितं बहुभिर्द्विजैः ॥ ३८ ॥ फलैः प्रवा-

सृष्टि कर रहा है और वह रश्मियोंको तीक्ष्ण कर रसोंको
 सोख रहा है ३२ इस समय पृथिवीके क्षय करने वाले राजे
 जीतनेकी इच्छासे अपनी सेनाको नीराज (स्वतन्त्र) कर, एक
 दूसरेके राज्यकी ओर जा रहे हैं ॥ ३३ ॥ रक्त पुष्पोंसे रमणीय
 लगने वाली और कमल लगी हुई विचित्र और कमनीय वन-
 राजियोंमें चित्त आसक्त होजाता है ॥ ३४ ॥ इस समय वनोंको
 सुशोभित करने वाले खिले हुए विजैसारके और कोविदारके
 वृक्ष शोभा पारहे हैं ३५ इस समय वाणासन (भाथे) हाथियों
 के गण्डस्थल, कदमके वृक्ष, स्वर्णक सुमरजातिके मृग पञ्चक
 (शाकविशेष) और केतकीके वृक्ष (शोभा पारहे हैं) ॥ ३६ ॥
 गर्गरके उद्गारसे हँसने वाले गोष्ठोंमें तो शरद्व ऋतु मानो रूप
 धारण कर ही विचर रही हैं ३७ इस समय देवता देवताओंकी
 वृद्धि करने वाले, वर्षा कालमें सुखपूर्वक शयन करने वाले और
 गरुडध्वज भगवानको जगाते हैं ॥ ३८ ॥ इस समय वर्षा ऋतु
 बीत गई है और धान्य वाली शरद्व ऋतु आगई है, और इस
 समय नीले तथा चन्द्रमा और सूर्यकी समान वर्ण वाले नाना

लेश्च घनमिन्द्रचापधनोपमम् । भवनाकारविटपं लतापरममण्डितम् ॥ ४० ॥ विशालमूलावृततं पवनाभोगमण्डितम् । अर्चयागो गिरिं देवं गार्च्चैव च विशेषतः ॥ ४१ ॥ सावृतंसर्विषाणैश्च वर्हापीडैश्च दंशितैः । घण्टामिश्रच प्रलम्बाभिः पुष्पैः शारदिकैस्तथा ॥ ४२ ॥ शिन्नाय गात्रः पूज्यन्तां गिरियज्ञः प्रवर्त्यताम् । पूज्यतां त्रिदशैः शक्रो गिरिरूपाभिरिज्यताम् ॥ ४३ ॥ कारयिष्यामि गोयज्ञं बलादपि न संशयः । यद्यस्ति मयि वः प्रीतिर्यदि वा सुहृदो वयम् ॥ ४४ ॥ गात्रो हि पूज्या सततं सर्वेषां नात्र संशयः । यदि साम्ना भवेत् प्रीतिर्भवतां वै भवाय च । एतन्मम वचस्तथ्यं क्रियतामविचारितम् ॥ ४५ ॥ षोडशोऽध्यायः

प्रकारके पत्नियोंने और फल तथा मवालोंने आकाशको इन्द्रचाप वाले मेघको समान रच दिया है, इस समय वृत्तोंने भवनोंके आकारको धारण कर लिया है और वह बड़ी २ लताओंसे मण्डित होरहे है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ उनकी विशाल जड़ें फैल गई हैं और उनमें सर्प रहने लगे हैं (ऐसे २ पदार्थोंसे विभूषित) पर्वतकी और गौओंकी हमको पूजा करना चाहिये ॥ ४१ ॥ (इस समय) सींगोंमें भूषण लगा कर और सींगोंको मोरपत्रसे भूषित करके और लटकती हुई घण्टियोंको बाँध कर गौओंका पूजन करना चाहिये और गिरियज्ञका भी प्रचार करना चाहिये इन्द्रकी पूजा तो देवता करते रहें, हमें तो पर्वतकी पूजा करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मैं तुम्हारा मित्र हूँतो मैं तुमसे बलपूर्वक गोयज्ञ करवालूँगा ४४ हम सबोंके लिये तो गौएँ ही सदा पूज्य हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, यदि तुम्हें मेरे समझानेसे इस बातको करनेकी रुचि हो गई हो तो तुम अपना वैभव बढ़ानेके लिये मेरे सत्य वचनको बिना विचारे कर डालो ४५ सोलहवाँ अध्याय समाप्त

वैशम्पायन उवाच । दामोदरवचः श्रुत्वा हृष्टास्ते गोपु
जीविनः । तद्वागमृतपरनानाः प्रत्यूचुरविशंकया ॥ १ ॥ तर्षपा
वाल महती गोपानां हर्षवर्धनी । प्रीणयत्येव नः सर्वान् बुद्धि-
वृद्धिकरी नृणाम् २ त्वं गतिस्त्वं रतिश्चैव त्वं वेत्ता त्वं पराय-
णम् । भयेष्वभयदस्त्वन्नस्त्वमेव सुहृदा सुहृत् ॥ ३ ॥ त्वत्कृते
कृष्णघोषोऽयं क्षेपी मुदितगोकुलः । कृत्स्नो वसति शांतिरिगथा
स्वर्ग गतस्तथा ॥ ४ ॥ जन्मप्रभृति कर्मैतद्देवैरसुकरं भुवि ।
बोद्धव्याच्चाभिमानाच्च विस्मिता विमनांसि नः ॥ ५ ॥ बलेम

वैशम्पायनजीने कहा, कि-गौओंसे आजीविका चलाने वाले
गोप श्रीकृष्णके वचनको सुन कर प्रसन्न होगए और उनके
बाणीरूप अमृतका स्वाद पाकर (इन्द्रसे) निःशंक हो रुहने
लगे, कि-॥ १ ॥ हे बालक ! तुम्हारी यह बाणी महत्त्वपूर्ण है
और इससे गोप हर्षमें भर गए हैं, तुम्हारी इस मनुष्योंकी वृद्धि-
कराने वाली बुद्धिसे हम सब परम सन्तुष्ट हो रहे हैं ॥ २ ॥
(अब इन्द्रसे भय न माननेका कारण दिखाते हैं, कि) आप ही
हमारी गति है और आपही हमारी रति (प्रेमस्थान) हैं, आप
वेत्ता हैं और आप परायण (आश्रय) हैं, आप ही हमें भयमें
से निकाल कर निर्भय कर देते हैं, अत एव आप हमारे परम
मित्र हैं ॥ ३ ॥ हे कृष्ण ! तुम्हारे कारण यह घोष क्षेमपूर्वक वस
रहा है और इसका गोकुल आनन्दमें रहता है और इसके शत्रु
(आपके कारण) शान्त पड़ गए हैं अत एव यह स्वर्गमें पहुँच
गया प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ आपने अपने जन्मसे ही पृथ्वीमें
(शक्रभंग पूतनावध आदि कर्म किया है उसको तो) देवता
भी मुखपूर्वक नहीं कर सकते, इस समय आपके देखने योग्य
(मैं गायत्री हठात् कराऊँगा) ऐसे अभिमानसे हमारे मन विस्मित
होरहे हैं (अर्थात् आप आवश्यकही इन्द्रपूजा छुटवा कर गोपूजा

च परार्थेन यशसा विक्रमेण च । उत्तमस्त्वं च मर्त्येषु देवेष्विव
 पुरन्दरः क्षमतापेन च तीक्ष्णेन दीप्त्या पूर्णतयाऽपि च । उत्तमस्त्वं
 हि मर्त्येषु देवेष्विव दिवाकरः ७ कान्त्या लक्ष्म्या मसादेन वद-
 नेन स्मितेन च । उत्तमस्त्वं च मर्त्येषु देवेष्विव निशाकरः ॥८॥
 बलेन वपुषा चैव बाल्येन चरितेन च । स्यात्ते शक्तिधरस्तुल्यो
 न तु कश्चन मानुषः ॥ ९ ॥ यत्त्वयाऽभिहितं वाक्यं गिरियज्ञं
 प्रति प्रभो । कस्तन्लघ्नितुं शक्तो वेत्तामिव महोदधेः ॥ १० ॥
 स्थितः शकमहस्तात श्रीमान्गिरिमहस्त्वयम् । त्वत्प्रणीतोऽथ
 गोपानां गवां हेतोः प्रवर्त्यताम् ॥ ११ ॥ भोजनान्युपकल्प्यन्तां
 पयसः पेशलानि च कुम्भाश्च विनिवेशयन्तामुदपानेषु शोभनाः १२
 पूर्यन्तां पयसा नद्यो द्रोण्यश्च विपुलायताः । भक्ष्यं भोज्यं च

अर्द्ध पर्वतपूजा प्रचलित करेंगे) ॥ ५ ॥ जैसे देवताओंमें इन्द्र
 उत्तम हैं, इसी प्रकार आप श्रेष्ठ बल यश और विक्रमसे मनुष्यों
 में उत्तम हैं ॥ ६ ॥ आप अपने तीक्ष्ण प्रताप और पूर्ण दीप्तिके
 कारण देवताओंमें सूर्यकी समान मनुष्योंमें उत्तम हैं ॥ ७ ॥
 जैसे कान्ति लक्ष्मी मसाद सुख और मुस्कुरानेमें चन्द्रमा देवताओं
 में श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसी प्रकार पूर्णोक्त बातोंमें मनुष्योंमें आप
 उत्तम हैं ८ कदाचित् स्वागि कार्तिकेय आपके बल शरीर और
 बाल्यचरित्रमें आपके बराबर हों, परन्तु इन बातोंमें कोई मनुष्य
 आपकी बराबरी नहीं कर सकता ॥ ९ ॥ जैसे समुद्रके किनारे
 को लॉयनेका कोई साहम नहीं कर सकता, इसी प्रकार आपकी
 कही हुई गिरियज्ञकी बातको कौन टाल सकता है १० अब इन्द्र
 का उत्सव स्थापित कर दिया गया और हे तात ! गौओंके और
 गोपोंके द्विके लिये आरका बनाया हुआ श्रीमान् पर्वतोत्सव
 मनाया जायेगा ११ अब भोजन बनाने चाहिये और दूधके सामान
 बनने चाहिये और पल्लवियों पर शोभन बड़े बनने चाहिये १२

पेयं च तत्सर्वमुपनीयताम् ॥ १३ ॥ भाजनानि च मांसस्य
 न्यस्यतामोदनस्य च । त्रिरात्रैश्चैव सन्दोहः सर्वघोपस्य गृह्य-
 ताम् ॥ १४ ॥ विहन्यतां च पशवो भोज्या ये महिषादयः । प्रव-
 र्त्यतां च यज्ञोऽयं सर्वगोपसमाकुलैः ॥ १५ ॥ आनन्दजननो घोषो
 महान् मुदितगोकुलः। तूर्यप्रणादघोषैश्च वृषभाणां च गर्जितैः १६
 हंगारवैश्च वत्सानां गोपानां हर्षवर्धनः । दन्तो हृदो घृतावर्तः
 पयःकुन्त्यासमाकुलः ॥ १७ ॥ मांसराशिः प्रभूतादयः गकार्यो-
 दनपर्वतः । संपावर्तत यज्ञोऽस्य गिरिर्गोभिः समाकुलः ॥ १८ ॥
 तृणगोपसमाकीर्णो गोपनारीमनोहरः । भक्ष्याणां राशयस्तत्र
 शतशश्च सदस्रशः ॥ १९ ॥ अथाधिश्रुतपर्यन्ते संप्राप्ते यज्ञसंविधौ ।

और बहुत लम्बी द्रोणियोंमें भी दुग्ध भरना चाहिये और सब
 भक्ष्य भोज्य और पेय आदि बनाने चाहिये १३ अब मांस और
 भातके पात्र ठीक करो और तीन रात तक सारे घोपके दूधकी
 रोक-लो (विकने न दो) १४ भोज्य महिष आदि पशुओंका
 वध करो और अब सब गोप कुत्तोंसे इस यज्ञको करना आरंभ
 करो १५ अब इस घोपमें आनन्दोत्सव मनाना चाहिये और इस
 की सारी गौएँ तूर्यके वजनेके घोपसे और साँड़ोंके गरजनेसे
 मसन्न हानी चाहिये १६ और गोप बद्धड़ोंके हंभा २ शब्दसे
 मसन्न हो और अब दहीके सरोवर वाला और घीके भ्रमर वाला
 और दूधकी हँडियोंसे भरा हुआ, मांसके ढेर वाला और चाबलों
 के भातके चमकने हुए ढेर वाला और गौओंसे गद्दा हुआ इस
 पर्वतका पूजन (यज्ञ) अब आरंभ होना चाहिये १७ १८ जब
 गोप मसन्नतामें भर गए और गोपस्त्रियोंसे (व्रज) मनोहर
 दीखने लगा और भक्ष्य पदार्थोंकी सँकड़ों और छडकों राशियें
 लग गई १९ तब सौम्य तिथि आने पर गोपोंने ब्राह्मणोंको साथ
 में लेकर पूजनकी सब सामग्रियोंको अग्निपर बनना कर उस गिरि

यज्ञं गिरेस्तिर्थौ सौम्ये चकूर्गोपा द्विजैः सह ॥ २० ॥ यजनांते
 तदन्नं तु तत्पयो दधि चोत्तमम् । मांसं च गायत्रा कृष्णो गिरि-
 भूर्त्वा समश्नुते ॥ २१ ॥ तर्पितारचापि विप्राग्रचास्तुष्टाः संपूर्ण-
 मानसाः । उत्तस्थुः प्रीतमनसः स्वस्तिवाच्य यथासुखम् ॥ २२ ॥
 युक्त्वा चावभृथे कृष्णः पयः पीत्वा च कामतः । संतुष्टोऽस्मीति
 दिव्येन रूपेण प्रजहाम वै ॥ २३ ॥ तं गोपाः पर्वताकारं दिव्य-
 स्सगजुलेपनम् । गिरिमूर्ध्नि स्थितं दृष्ट्वा कृष्णं जग्मुः प्रधानतः २४
 भगवानपि तेनैव रूपेण च्छादितः प्रभुः । सहितैः प्रणितो गोपै-
 र्वन्दत्मानमात्मना ॥ २५ ॥ तमूचुर्विस्मिता गोपा देवं गिरि-
 चरे स्थितम् । भगवंस्त्वद्रशो युक्ता दासाः किं कुर्म किंकराः २६
 स उवाच ततो गोपान्गिरिभवया गिरा । अद्य प्रभृति चेज्योऽहं

का पूजन किया २० पूजनके अन्तमें श्रीकृष्णने मायासे अपनेको
 पर्वत बना लिया और वह अन्न दुग्ध उत्तम दधि और मांसका
 भक्षण करने लगे २१ तदनन्तर ब्राह्मण भी उत्त होकर अपने
 मनके मनोरथको पाकर अपने मनमें प्रसन्न हो स्वस्तिवाचन कर
 लठ खड़े हुए २२ यज्ञान्तस्नान होने पर श्रीकृष्ण सब पदार्थों
 का भक्षण करके और इच्छानुसार दुग्ध पाकर (पर्वतके) दिव्य
 रूपमें हँस कर कहने लगे, कि-में तम होगया २३ गोपोंने उस
 पर्वताकार शरीरधारी दिव्य गाला और चन्दनका लेप करने
 वाले पुरुषको पर्वतके शिखर पर विराजमान देखा और उनको
 वास्तवमें श्रीकृष्ण ही समझा ॥ २४ ॥ इधर (गोपरूपमें)
 द्विपो हुए प्रभु भगवान्ने भी गोपोंके साथ उस पर्वताधिष्ठात्री
 देवताको प्रणाम किया, इस प्रकार उन्होंने अपनेको अपने आप
 प्रणाम किया ॥ २५ ॥ उस समय गोप पर्वतश्रेष्ठ पर विराजमान
 पुरुषमें, विस्मित होकर कहने लगे हे भगवन् ! हम सब आपके
 वज्रमें हैं और आपके दास हैं, बनाइये अब हम क्या करें २६

गोषु यद्यस्ति वो दया ॥२७॥ अहं वः प्रथमो देवः सर्वकामकरः
 शुभः । मम प्रभावाच्च भवान्पुनान्येव भोक्ष्यथ ॥२८॥ शिवश्च
 वो भविष्यामि मद्भक्तानां वने वने । रंस्ये च सह युष्माभिर्यथा
 दिवि गतस्तथा ॥२९॥ ये चेमे प्रथिता गोपा नन्दगोपपुरोगमाः।
 एषां प्रीतः प्रयच्छामि गोपानां विपुलं धनम् ॥ ३० ॥ पर्याप्नु-
 वन्तु त्तिप्रं मां गावो वत्ससमाकुलाः । एवं मम परा प्रीतिर्भवि-
 ष्यति न संशयः ॥ ३१ ॥ ततो नीराजनार्थं हि वृन्दशो गोकु-
 लानि तम् । परिवर्तुर्गिरिवरं सवृषाणि समन्ततः ॥ ३२ ॥ ता
 गावः मद्रुता हृष्टाः सापीडस्तवकांगदाः । सस्रजापीडशृङ्गाग्राः शत-
 शोऽथ सहस्रशः ॥ ३३ ॥ अनुजग्मुश्च गोपालाः कालयन्तो
 धनानि च । भक्तिच्छेदानुलिप्तांगा रक्तपीतसितांबराः ॥ ३४ ॥

तदनन्तर वह पर्वतमेंसे निकलती हुई वाणीमें कहने लगे कि-यदि
 तुम गौओं पर दया करते हो तो आजसे मेरी पूजा करना २७
 मैं तुम्हारा मुख्य देवता हूँ और तुम्हारी सब कामनाओंको पूर्ण
 करने वाला शुभ देव हूँ, तुम मेरे प्रभावसे लाखों गौओंको
 पाओगे ॥२८॥ मैं अपने भक्तोंका प्रत्येक वनमें कन्याएँ करता
 रहूँगा और तुम्हारे साथ स्वर्गस्थितकी समान क्रीडा करूँगा २९
 और नन्दगोप आदि गोपोंके जो मुखिया गोप हैं, मैं प्रसन्न होकर
 उनको विपुल गोधन दूँगा ॥ ३० ॥ बड़ड़े वाली गौएँ मेरी
 प्रदक्षिणा करें, तब मैं निःसन्देह परम प्रसन्न होऊँगा ॥३१॥
 तब बहुतसे गौओंके और वीलोंके झुण्ड गिरिवरकी प्रदक्षिणा
 करनेके लिये एकत्रित होगए ॥३२॥ उस समय गलेमें आभूषण
 वाली और टोंगोंमें बँधी हुई फूलोंके वाजूवन्द वाली और सीगोंमें
 लगे हुए फूलोंके आभूषण वाली सैंकड़ों और सहस्रों गौएँ
 दौड़ने लगी ॥३३॥ उस समय विभागके भेदसे (नाना वर्णोंसे)
 रक्त पीत और स्वेत वर्णोंको धारण करने वाले गोपाल अपने

मयूरनित्रांगदिनो भुजैः पहरणावृतैः । मयूरपत्रवृन्तानां केश-
वन्धैः सुगोजितैः ॥ ३५ ॥ वभ्राजुरधिकं गोपाः समवाये तदा-
ऽद्भुते । अन्ये वृपानोरुहृन्तृत्यन्ति स्म परे मुदा ॥ ३६ ॥ गोपा-
लास्त्वपरे गाश्व जगृहुर्वेगगामिनः । तस्मिन् पर्यायनिर्वृत्ते गर्वा
गराज्नोत्सवे ॥ ३७ ॥ अन्तर्धानं जगामाशु तेन देहेन सोऽचलः ।
कृष्णोपि गोपसहितो विवेश व्रजमेव ह ॥ ३८ ॥ गिरियज्ञप्रवृत्तं
तेनाश्चर्येण विस्मितः गोपाः स्म वालवृद्धा वै तृष्टुर्मुधुमुदनम् ३६
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि गिरियज्ञ-

प्रवर्तनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

दौशम्पायन उवाच । महे प्रतिहते शक्रः सक्रोधस्त्रिदशेश्वरः ।

अपने गोधनोंको नियममें रखते हुए उनके पीछे रचलने लगे ३४
उस समय अपने मोरपत्रके बाजूबन्द वाले हाथोंमें आयुधोंको
उठाते हुए मोरपत्रके मुकुटोंको धारण करने वाले एकत्रित हुए
गोप उस अद्भुत समुदायमें परम शोभा पाने लगे और कुछ
चैलों पर चढ़ गए और कुछ हर्षमें भर कर नाचने लगे ३५-३६
जब गौश्रोंकी प्रदक्षिणा करनेका उत्सव बीन गया तब भागती
हुई गौश्रोंको गोपोंने रोक लिया ॥ ३७ ॥ उस समय शरीर
धारी पर्वत अन्तर्धान होगया और श्रीकृष्ण भी व्रजमें घुस
गए ॥ ३८ ॥ उस समय गिरियज्ञ प्रवृत्त करनेके आश्चर्यसे
विस्मयमें पड़े हुए वाल और वृद्ध गोप श्रीकृष्णकी स्तुति करने
लगे ॥ ३९ ॥ सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥

(इस अध्यायमें व्रजके ऊपर कुपित होकर इन्द्रके सात दिन
तक बरसनेका और श्रीकृष्णके गोवर्धनको उठाकर व्रजकी रक्षा
करनेका वर्णन है, श्रुतिमें लिखा है, कि- 'तगस्य राजा वरुण-
स्तमश्चिना नतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः । दाधार दत्तमुत्तमम-
द्विदं व्रजं च विष्णुः सखिर्वा अपोर्णुते' अर्थात् विष्णुके

सावर्तकं नाम गणं तोयदानामथाववीत् ॥ १ ॥ गो वलाहक-
मातंगाः श्रूयतां गम भाषितम् । यदि वो मत्प्रियं कार्यं राजभक्ति-
पुरस्कृतम् ॥ २ ॥ एते वृन्दावनगता दामोदरपरायणाः । नन्द-
गोपादयो गोपा विद्विषन्ति मपोत्सवम् ॥ ३ ॥ आजीवो यः
परस्तेषां गोपत्वं च यतः स्मृतमृता गावः सप्तरात्रेण पीडयन्तां
वर्षगारुतः ॥४॥ ऐरावतगतश्चाहं स्वयमेवांबुदारुणम् । सूक्ष्मामि
वृष्टिं वातं च वज्राशनिसमप्रभम् ॥५॥ भवद्भिरचण्डवर्षेण चरता

पर्वतके लिये निर्मित यज्ञका और अश्विनीकुमारोंने तो अनु-
मोदन किया, परन्तु वायुके सूष्टा इन्द्रके यज्ञका भंग होने पर
इन्द्र कोपमें भरगयो था उस समय विष्णुने उत्तम और वृष्टिका
निवारण करनेमें समर्थ और जिसकी पूजा की गई थी उस
पर्वतको उठा लिया उससे उन्होंने व्रजके बहुतसे मिथोंकी
रक्षा की थी) वैशम्पायनजीने कहा, कि-अपने उत्सवके न
मनाये जाने पर देवताओंका ईश्वर इन्द्र क्रोधमें भर गया और
वह साम्बर्तक नाम वाले मेघोंसे कहने लगा कि-॥ १ ॥ हे मेघ-
मातंगों ! यदि तुम राजभक्ति दिखा कर मेरा प्रिय करना चाहते
हो तो मेरे भाषणको सुनो ॥२॥ ये वृन्दावनमें रहने वाले गोप
अब दामोदरको ही सब कुछ मानते हैं और (इस समय तो)
इन्होंने मेरे उत्सवसे भी द्वेष किया है ॥३॥ अत एव जो इनकी
परम आजीविका हैं और जिनके कारण ये गोप कहलाते हैं
अब उन गौओंको तुम वर्षा वरसा कर और वायु चलाकर
सात रात तक गौओंको पीडा दो ॥ ४ ॥ और मैं भी ऐरावत
हाथी पर चढ़ कर दारुण जल बरसाने वाली वृष्टि हो बरसाऊँगा
और वज्र तथा अशानिकी सगान वायु चलाऊँगा ॥ ५ ॥ जब
तुम प्रचण्ड वर्षा करोगे और वायुके साथ साथ विचरण करोगे
तब पृथ्वीमें स्थित व्रजमें रहने वाली गौएँ पीडित होकर अपने

मारुतेन च । हतास्ता सत्रगा गावस्त्यक्ष्यन्ति भुवि जीवितम् ६
एवमाज्ञापयामास सर्वान् जलधसान प्रभुः । प्रत्याहते वै कृष्णेन
शासने पाकशासनः ॥ ७ ॥ ततस्ते जलदाः कृष्णा घोरनादा
भगावहाः । आकाशं द्यादयामासुः सर्वतः पर्वतोपमाः ॥ ८ ॥
विद्युत्संपातजननाः शक्रचापविभूषिताः । तिमिरावृतमाकाशं
चक्रुस्ते जलदास्तदा ॥ ९ ॥ गजा इवान्यसंयुक्ताः केचिन्मकर-
वर्चसः । नागा इवान्ये गगने चैर्जलदपुङ्गवाः ॥ १० ॥ तेन्योऽन्यं
वपुषा वद्वा नागयूथायुतोपमाः । दुर्दिनं विपुलं चक्रुश्चादयन्तो
नभस्तलम् ॥ ११ ॥ नृहस्तनागहस्ताभ्यां वेणुनां चैव सर्वतः ।
धाराभिस्तुल्यरूपाभिर्वचस्पुस्ते बलाहकाः ॥ १२ ॥ समुद्रं मेनिरे
तं हि खमारुहं नृचक्षुषः । दुर्विगाह्यमपर्यन्तमगाधं दुर्दिनं महत् ।
नैवापतन् वै खगमा दुद्रुवृर्गजातयः । पर्वताभेषु मेघेषु खे

प्राणोंको छोड़ देंगी ॥६॥ तब प्रभु इन्द्रने श्रीकृष्णके द्वारा अपने
शासनके नष्ट होने पर इस प्रकार सब मेघोंको आज्ञा दी थी ७
तदनन्तर भयंकर नाद करने वाले और प्राणियोंको भयभीत
करने वाले पर्वनाकार काले मेघोंने आकाशको चारों ओरसे द्या
लिया ॥ ८ ॥ और इन्द्रधनुषसे शोभित और विजली गिराने
वाले मेघोंने आकाशको अंधेरेसे द्या दिया ॥ ९ ॥ उस समय
जैसे हाथीसे हाथी अड़ कर चलते हैं, इसी प्रकार परस्परमें मिलते
हुए मकरकी समान कान्तिमान् वेव आकाशमें परस्पर अड़ कर
विचरण करने लगे १० सैंकड़ों नागयूथोंकी समान अपने शरीरको
एक दूसरेसे मिला कर उन मेघोंने आकाशको द्याकर दुर्दिन बना
दिया ॥ ११ ॥ तब मेघ मनुष्योंके हाथ, हाथियोंकी सूँड और
वेणुओं(बासों) पर एकसी धारा बरसाने लगे ॥ १२ ॥ मनुष्यों
की आँखोंने उस भारी दुर्दिनको दुर्विगाह्य और अगाध समुद्रको
आकाशमें चढ़ा हुआ समझा ॥ १३ जब पर्वतकी समान आभा

नदत्तु समन्ततः ॥ १४ ॥ नष्टसूर्येन्दुसदृशैर्मैघैर्नभसि दारुणैः ।
 अतिवृष्टेन लोकस्य विरूपगभवद्रपुः ॥ १५ ॥ मेघौघनिष्प्रभाकार-
 महश्यग्रहतारकम् । चन्द्रसूर्याशुरहितं खं वभूवातिनिष्प्रभम् १६
 चारिणा मेघमुक्तेन मुच्यमानेन चासकृत् । आवर्गौ सर्वतस्तत्र
 भूमिस्तोषमयी यथा ॥ १७ ॥ विनेदुर्वर्हिणस्तत्र तोककल्परुताः
 खगाः । विवृद्धि निम्नगा याताः लवगाः संसर्व गताः ॥ १८ ॥
 गर्जितेन च मेघानां पर्जन्यनिनदेन च । तर्जितानीव कम्पन्ते
 तृणानि वहभिः सह ॥ १९ ॥ प्राप्तोत्कालो लोकानां व्यक्तमे-
 कार्णवा मही । इति गोपगणा वाक्यं व्याहरन्ति भयादिताः २०
 तेनोत्पातांबुवर्षेण गात्रो विपहतो भृशम् । हंभारवैः क्रन्दमाना

वाले मेघ आकाशमें चारों ओर गर्जना करने लगे तब पत्तियोंने
 उड़ना बन्द कर दिया और पशु भाग गए ॥ १४ ॥ जब सूर्य
 और चन्द्रमाको छिपाने वाले (मलयकालीन मेघोंकी समान)
 दारुण मेघोंने आकाशमेंसे बड़ी भारी वर्षा की उस समय अति-
 वृष्टिके कारण मनुष्य विरूप होगए ॥ १५ ॥ और मेघोंके समूहसे
 निष्प्रभ आकार वाले और जिसमेंके ग्रह नक्षत्र अदृश्य होगए थे
 और जो चन्द्र सूर्यरहित होगया था ऐसा आकाश परम निष्प्रभ
 होगया ॥ १६ ॥ मेघोंमेंसे बरसे हुए और अब भी निरन्तर
 बरसते हुए जलके कारण पृथ्वी सर्वत्र जलमयी ही दिखाई देने
 लगी ॥ १७ ॥ उस समय मोर भी बोलने लगे और पक्षी चहचहाने
 लगे नदियोंमें बाढ़ आगई और तट परके वृक्ष अहलेसे उखड़
 कर धारमें बगेसे बहने लगे ॥ १८ ॥ मेघोंके गर्जनेसे और मलय-
 कालीन मेघोंके निनादसे तृण और वृक्ष धमकाये हुए मनुष्योंकी
 समान काँपने लगे ॥ १९ ॥ उस समय भयभीत हुए गोप कहने
 लगे, कि-लोकोंका अन्तकाल आगया है इस लिये ही पृथ्वी एक
 समुद्रकी समान होरही है २० उस उत्पातयी जल वृष्टिसे गाँवों

न चेलुः स्तम्भितोपगाः ॥ २१ ॥ निष्कम्पसन्निचरणा निष्कम्प-
 त्गखुगननाः । हृष्टरोमार्द्रतनवः क्षामकुन्तिपरोधराः ॥ २२ ॥
 काश्चित् माणान् जहुः श्रान्ता निपेतुः कारिचदातुराः । काश्चित्
 सवत्साः पतिता गावः शीकरवेजिताः ॥ २३ ॥ कारिचदाक्रम्य
 क्रोडेन वत्सास्तिष्ठन्ति गावरः । विमुखाः श्रान्तसकथ्यश्च निरा-
 हारा कृशोदराः ॥ २४ ॥ पेतुरार्ता वेपमाना गावो वर्षपराजिताः ।
 वत्साश्चोन्मुखका वाला दामोदरमुखाः स्थिताः । त्राहीति वन्द-
 नेर्दीनैः कृष्णमूचुरिवादिताः ॥ २५ ॥ गवां तत्कन्दनं दृष्ट्वा दुर्दि-
 नागमजं महत्तागोपांश्चासन्निनधनान् कृष्णः कोपं समादधे २६
 संचितपित्वा संरब्धो दृष्टोपायो मयेति च । आत्मानमात्मगा

को बड़ी पीड़ा पहुँची इस कारण उनमें स्तंभकी सगान इधर
 उधर हिलनेकी भी शक्ति न रही और वे हंभा २ करके डकराने
 लगीं ॥ २१ ॥ उनकी जाँघें और चरण अकड़ गए इस लिये
 उनके मुख और खुरोंमें चेष्टा होना बन्द होगई, जलमें भीगनेसे
 उनके शरीरके रूएँ सड़े होगए और उनकी कोखें और ऐन
 खाली होगए ॥ २२ ॥ उस समय बहुतसी गौएँ थक कर मर
 गई और बहुतसी गौएँ आतुर होकर गिर पड़ीं और वर्षासे
 काँप कर बहुतसी गौएँ अपने बखडोंसहित गिर पड़ीं ॥ २३ ॥
 बहुतसे बखड़े अपनी माताओंकी बगलमें सट कर खड़े होगए,
 वे गौएँ विमुख होगईं उनकी जाँघें थक गईं, निराहार रहने
 से उनके उदर पटक गए ॥ २४ ॥ तब वे वर्षासे पराजय पाई
 हुईं गौएँ दुःखित होती हुईं और काँपती हुईं गिर पड़ीं और
 उनके बखड़े ऊपरको मुख उठा कर दामोदरकी ओरको
 देखने लगे ॥ २५ ॥ दुर्दिनके कारण होने वाले गौओंके
 संहारको देखकर और गोपोंको मरणोन्मुख देख कर श्रीकृष्णको
 क्रोध आगया २६ सोचते २ वह क्रोधमें भर गए और वह पिप-

वाक्यमिदमूचे प्रियम्बदः ॥ २७ ॥ अद्याहमिममुत्पाटय सकानन-
वनं गिरिम् । कल्पयेयं गवां स्थानं वर्षत्राणाय दुर्धरम् ॥ २८ ॥
अयं धृतो मया शैलः पृथ्वीगृहनिभोगमः । चापते सत्रजा गा वै
मदृश्यश्च भविष्यति ॥ २९ ॥ एवं सचिन्तयित्वा तु कृष्णः सत्य-
पराक्रमः । बाहोर्बलं दर्शयिष्यन् समीपं तं महीधरम् ॥ ३० ॥
दोर्भ्यामुत्पाटयामास कृष्णो गिरिरिवापरः । स धृतः संगतो मेघे-
गिरिः सज्येन पाणिनां गृहभावं गतस्तत्र गृहाकारेण वर्चसा ३१
भूमेरुत्पाटयमानस्य तस्य शैलस्य साजुषु । शिलाः प्रशियिला-
श्चेत्तुर्निष्पेतुश्च पादगाः ॥ ३२ ॥ शिखरैर्घूर्णमानैश्च सोद-
मानैश्च पादगैः । विधूतैश्चोच्छ्रितैः शृङ्गैरगगः खगणोऽभवत् ३३

भाषी अपने मनमें कहने लगे, कि-मुझे उपाय सूझ गया २७
आज मैं इस दुर्धर पर्वतको वन और बगीचीं सहित उठा लूँ और
इसको गौश्रीका वर्षासे बचानेका स्थान बनाऊँगा ॥ २८ ॥ जब
मैं इस पर्वतको उठा लूँगा तब यह पर्वत पृथ्वीमें बने हुए घरकी
समान होजायगा और सारे वन और गौश्रीकी इसमें रक्षा
होजावेगी और यह पर्वत भी मेरे बशमें होजायगा २९ इस प्रकार
विचार करनेके अनन्तर सत्यपराक्रमी श्रीकृष्ण अपनी भुजाओंका
बल दिखानेके लिये उस पर्वतके पास (गए) ३० उस समय
दूसरे पर्वतकी समान श्रीकृष्णने अपनी भुजाओंसे उस पर्वतको
उखाड़ लिया उस समय श्रीकृष्णके दाहिने हाथ पर रखवा हुआ
मेघोंसे घिरा हुआ वह पर्वत गृहकी समान तेजसे घर बन
गया ३१ जित्त समय भूमिमेंसे उस पर्वतको उखाड़ा था उस समय
उसके शिखरोंमेंसे पत्थर खिसक २ कर गिरने लगे और गृहभी
कोपने लगे ३२ डगमगाते हुए शिखरोंके और गड़बड़ाते हुए
तथा दुःखित होते हुए पेड़ोंके साथ उठाने पर वह न चलने वाला
पहाड़ आकाशचारी होगया ३३ उस पहाड़के भरने मेघोंके

चलत्प्रसूवणैः पार्श्वैर्मैघाद्यैरेकतां गतैः । विद्यमानारमनिचय-
श्चचाल धरणीधरः ॥ ३४ ॥ न मेघानां प्रवृष्टानां न शैलस्या-
श्मवर्षिणः । विविदुस्ते जना रूपं वायोस्तस्य च गर्जतः ॥ ३५ ॥
मेघैः सशैलसंस्थानैर्जलप्रसूवणार्पितैः । मिथीकृत इवाभाति गिरि-
रुदामवहवान् ॥ ३६ ॥ आप्लुतोऽयं गिरिः पक्षैरिति विद्याधरो-
रगाः । गन्धर्वाप्सरसश्चैव वाचो मुञ्चन्ति सर्वशः ॥ ३७ ॥ स इत्सू-
तलविन्यस्तो मुक्तमूलः क्षितेस्तलात् । शीतीर्निर्वर्तयामास काञ्च-
नाञ्जनराजतीः ॥ ३८ ॥ कानिचिच्छिथिलानीव संच्छिन्नार्थानि
कानिचित् । गिरैर्मैघप्रवृष्टानि तस्य शृङ्गाणि चाभवन् ॥ ३९ ॥
गिरिणा कम्पमानेन कम्पितानां तु शाखिनाम् । पुष्पमुच्चावचं
भूर्गो व्यशीर्यत समन्ततः ॥ ४० ॥ निःसृताः पृथुमूर्धानः स्वस्ति-

झण्डही समान दीखते थे, उनके साथ २ जिसमें पत्थरोंका डेर
पड़ा हुआ था वह पहाड़ डगमगाने लगा ३४ उस समय मनुष्यों
को बरसते हुए मेघोंमें और पत्थर बरसाने वाले पहाड़में और
गरजते हुए वायुके शब्दमें (कुञ्ज भेद) न मालूम पड़ा ३५ पहाड़की
समान जल बरसाने वाले मेघोंसे मिला हुआ वह पहाड़ ऊपरको
पूछ उठाने वाले मेघकी समान दीखता था ३६ उस समय गंधर्वा
अप्सरस और विद्याधर चारों ओरसे कहने लगे, कि इस पहाड़के
पर निकल आये है और उन (मेघरूप) परोंसे यह उड़ रहा है ३७
पृथ्वीतलपरसे उखाड़ कर हस्ततल पर रखवा हुआ वह पर्वत
सुवर्ण अञ्जन और चाँदीकी धातुओंको बहाने लगा ॥ ३८ ॥
मेघोंके बरसाने पर उस पर्वतके बहुतसे शिखर शिथिल होगए
और बहुत से आधे २ ढह पड़े ॥ ३९ ॥ पर्वतके साथ कौनसे
वाले वृक्षांसे पुष्प गिरने लगे और उनकी बर्षासे पृथ्वी द्या
गई उस समय क्रोधमें भरकर स्वस्तिकार्थगण्डलसे विभूषित
(लहरिया पड़े हुए) मोटे २ शिर वाले उड़ने तर्प निकल कर

कार्धनिभूषिताः । द्विजिह्वपतयः क्रुद्राः खेचराः खे समन्ततः ४१
 शार्ति जम्बुः खगगणा वर्षेण च भगेन च । उत्पत्योत्पत्य गननात्
 पुनः पेतुरवाङ्मुखाः ॥ ४२ ॥ रेसुरागोपिताः सिंहाः सगला
 इव तोयदाः । गर्गरा इव मध्यन्तो नेदुः शार्दूलपुङ्गवाः ॥ ४३ ॥
 विषमैश्च समीभूर्तैः समैश्चात्यन्तदुर्गमैः । व्यावृत्तदेहः स गिरि-
 रन्य एत्रोपलक्ष्यते ॥ ४४ ॥ अतिवृष्टस्य तैर्मेघैस्तस्य रूपं वभूव
 ह । स्तम्भितस्येव रुद्रेण त्रिपुरस्य विहायसि ॥ ४५ ॥ बाहु-
 दण्डेन कृष्णस्य विष्टतं सुमहत्तदा । नीलाभ्रपटलच्छन्नं तद्विरि-
 च्छत्रगावभी ॥ ४६ ॥ स्वप्नायमानो जलदैर्निमीलितगुहामुखः ।
 बाहूस्थाने कृष्णस्य प्रसुप्त इव खे गिरिः ॥ ४७ ॥ निर्विहंगस्तै-
 र्दत्तैर्निर्मयूरस्तैर्वनीः । निरालम्ब इवाभाति गिरिः स्वशिखिरै-

आकाशमें घूमने लगे ॥ ४१ ॥ पत्नी भी वर्षा और भयसे पीड़ित
 होकर चारम्बार आकाशमें उड़ने लगे और नीचेको मुख कर
 फिर आने लगे ॥ ४३ ॥ और सिंह क्रोधमें भर जलवाले मेघोंकी
 समान गरजने लगे और शार्दूल दही चलानेकी मटकीकी समान
 गुराँते लगे ॥ ४३ ॥ उस पर्वतके विषम स्थल उस समय सग
 एकसार होगए थे और सग स्थल विषम होगए इस प्रकार लौट
 फेर होनेसे वह पर्वत दूसरा पर्वत प्रतीत होने लगा ॥ ४४ ॥
 मेघोंके अधिक वर्षा बरसानेसे उस पर्वतका रूप रुद्रके द्वारा
 आकाशमें स्तम्भित किये हुए त्रिपुरकी समान होगया ॥ ४५ ॥
 श्रीकृष्णके बाहुदण्ड पर उठा हुआ वह नीले बादलोंसे घिरा
 हुआ बड़ा भारी गिरिच्छत्र शोभा पाने लगा ॥ ४६ ॥ मेघों
 (के अन्धकारके कारण) शयन करताहुआ और (अन्धकार
 के कारण) बन्द होगया है गुहारूपी मुख जिसका ऐमा पर्वत
 आकाशमें श्रीकृष्णके भुजारूपी तकिये पर शयन करता हुआसा
 दीखता था ॥ ४७ ॥ पत्नीके चहचहानेसे शून्य पेड़ों वाले और

वृत्तः ॥ ४८ ॥ पर्यस्तीर्णमानैश्च प्रचलद्भिश्च सानुभिः ।
सञ्चराणीव शैलस्य वनानि शिखराणि च ॥ ४९ ॥ उत्तमांग-
गतास्तस्य मेघाः पवनवाहनाः । त्वर्यमाणा महेंद्रेण तोयं मुमुक्षु-
रक्षयम् ॥ ५० ॥ स लम्बगानः कृष्णस्य भुजाग्रो सघने गिरिः ।
चक्राल्ल इवाभाति देशो नृपतिपीडितः ॥ ५१ ॥ समेवनिचय-
स्तस्यो गिरिं तं परिवार्य ह । पुरं पुरस्कृत्य यथा स्फीतो जन-
पदो महान् ॥ ५२ ॥ निवेशयं तं करैः शैलं तोलयित्वा च सस्मि-
तम् । मोवाच गोप्ता गोपानां प्रजापतिरिव स्थितः ॥ ५३ ॥ एत-
द्देवैरसंभाव्यं दिव्येन विधिना मया । कृतं गिरिगृहं गोपा निर्वातं
शरणं गवाम् ॥ ५४ ॥ त्तिप्रं विशन्तु गूधानि गवामिह हि शांतये ।

मयूरीके शब्दोंसे शून्य वनों वाले शिखरों वाला पर्वत निरा-
लम्ब (अथर) सा शोभा पारहा था ॥ ४८ ॥ अस्तव्यस्त होते
हुए घूमते हुए और हिलते हुए शिखरोंके कारण उस पर्वतके
शिखर और वन ऐसे मतीत होते थे, मानों उनको जाड़ा बुखार
आरहा हो ॥ ४९ ॥ उस समय इन्द्रके आदेशसे पवनवाह मेघ
फुनोंसे उसही चोटी पर अट्ट जल बरसाने लगे ॥ ५० ॥
बादलोंसे बिरा, हुआ पर्वत श्रीकृष्णके हाथ पर रखनेके समय
(पत्थरोंके लुढ़कनेके कारण) ऐसा मालूम होता था मानों
दूसरे राजाके चढाई करनेके कारण देशके मनुष्य रथ आदिमें
बैठ कर भाग रहे हों ॥ ५१ ॥ जैसे विस्तृत देश पुरको घेरकर
बसाहुआ होता है, इसी प्रकार मेघ भी पर्वतको घेर कर खड़े
होगए ॥ ५२ ॥ उस समय प्रजापतिकी समान खड़े हुए गोपों
के रक्षक श्रीकृष्णने अपने हाथ पर पर्वतको रख उसको तोला
फिर वह गोपोंसे कहने लगे ॥ ५३ ॥ जो बात देवनाओंके लिये
भी संभव नहीं है उस बातको मैंने अपने अलौकिक पभावसे
कर दिखाया है ? हे गोपों ! मैंने गाँवोंकी रक्षा करनेके लिये

निवृत्तिषु च देशेषु निवसन्तु यथासुखम् । गन्धाश्रेष्ठं यथायुथं गन्धा-
सारं यथासुखम् ॥ ५५ ॥ विभज्यतामयं देशः कृतं वर्षनिवा-
रणम् । शैलोत्पाटनभूरेषा महती निर्मिता मया ॥ ५६ ॥ पंच-
कोशप्रमाणेन क्रौशैकं विस्तरो महान् । त्रैलोक्यमप्युत्सहते रक्षितुं
किं पुनर्व्रजम् ॥ ५७ ॥ ततः किलकिलाशब्दो गवरां इम्भारवैः सह ।
गोपानां तुमुलो जज्ञे मेघनादश्च वाद्यतः ॥ ५८ ॥ प्राविशन्त
ततो गावो गोपैर्युथपकल्पिताः । तस्य शैलस्य विपुलं प्रदरं गह-
रोदरम् ॥ ५९ ॥ कृष्णोऽपि मूले शैलस्य शैलस्तम्भ इवाच्छ्रुतः ।
द्वारैकेन हस्तेन शैलं प्रियमिवातिथिम् ॥ ६० ॥ ततो व्रजस्य
भायडानि युक्तानि शकटानि च । विविशुर्षर्षभीतानि तद्गृहं

जिसमें वायु भी न जासके ऐसा गिरिशूह बना दिया है ५४ अब
शान्ति पानेके लिये गोपोंके भुण्ड यहाँ पर शीघ्रतासे प्रवेश करें
और वायुरहित स्थानमें सुखपूर्वक निवास करें, मैंने वर्षाको
निवारण करने (रोकने) वाला देश बना दिया है अब तुम
अपनी श्रेष्ठता यथा और सारके अनुसार इस देशका विभाग कर
सुखपूर्वक रहो, मैंने पर्वतको उखाड़ कर बड़ी चौड़ी पृथिवी
बना दी है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ यह (पर्वतके नीचेका स्थान)
पाँच कोस चौड़ा और एक कोस लम्बा है, यह स्थान तीनों
लोकोंकी रक्षा कर सकता है फिर व्रजकी तो बात ही क्या है ?
तब तो बाहर गोपोंका किल किल शब्द होने लगा और साथमें
गोपों भी हंभा २ शब्द करने लगे और मेघोंका भी तुमुल नाद
होने लगा ॥ ५८ ॥ तदनन्तर गोपोंके द्वारा भुण्डोंमें खड़ी की गई
गोप उस पर्वतके बड़े भारी गुफारूपी उदरमें घुसने लगीं ५९
इधर कृष्णने भी पर्वतके मूलमें स्तंभकी समान ऊँचे खड़े होकर
अपने एक हाथसे पर्वतको अपने प्रिय मित्रकी समान ग्रहण कर
लिया ॥ ६० ॥ तब तो वर्षासे डरते हुए व्रजके गोप अपने दृकड़ों

गिरिनिर्मितम् ॥ ६१ ॥ अतिदैव तु कृष्णस्य दृष्ट्वा तत्कर्म वज्र-
भृत् । मिथ्यामतिज्ञो जलदान् वारयागास वै विभुः ॥६२॥ सप्त-
रात्रे तु निर्वृत्ते धरण्यां विगतोत्सवः । जगाम संततो मेघैर्ब्रह्मा
स्वर्गमुत्तमम् ॥ ६३ ॥ निर्वृत्ते सप्तरात्रे तु निष्प्रवत्ने शतक्रतो ।
गताश्रे विगले व्योम्नि दिवि संदीप्तभास्करे ॥६४॥ गावस्तेनैव
मार्गेण परिजग्मुर्गतश्रमाः । स्वं च स्थानं ततो घोषः प्रत्ययौ
पुनरेव सः ॥ ६५ ॥ कृष्णोऽपि तं गिरिशिष्टं स्वस्थाने स्थाचरा-
त्ववान् । प्रीतो निवेशयामास शिवाय वरदो विभुः ॥ ६६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि

गोवर्धनोद्धरणं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥

वैशम्पायन उवाच । धृतं गोवर्धनं दृष्ट्वा परित्रातं च गोकुलम्।

में वर्तन (पात्र) भर कर पहाड़में बनाये हुए घरमें घुसने
लगे ॥ ६१ ॥ तब तो वज्रगारी इन्द्रकी मतिज्ञा श्रीकृष्णके उस
देवताओंको परास्त करने वाले कर्मको देख कर मिथ्या होगई
और उसने मेघोंको हटालिया ॥ ६२ ॥ पृथ्वीमें जिसका उत्सव
मनाना छोड़दिया गया था वह इन्द्र सात रात बीत जाने पर
अपने मेघोंको लेकर उत्तम स्वर्गको चला गया ॥ ६३ ॥ जब
सात रात्रिऐं बीत गईं और इन्द्रने प्रयत्न करना छोड़ दिया
और जब आकाश वादलरहित हो हर निर्मल होगया तथा सूर्य
चमकने लगा ॥ ६४ ॥ तब धरुनरहित हुईं गौं उसही मार्गसे
अपने स्थान पर लौटने लगीं और वह घोषभी फिर अपने स्थान
पर लौट आया ॥ ६५ ॥ तदनन्तर अकम्प वरद विभु श्रीकृष्ण
नेभी प्रसन्न होकर उस गिरिवरको उसके स्थान पर धर
दिया ॥ ६६ ॥ अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-श्रुकृष्णने गोवर्धनको उठा लिया
और गोकुलकी रक्षा कर ली यह देख कर इन्द्र विस्मित होगया

कृष्णस्य दर्शनं शक्रो रोचयामास विस्मितः ॥१॥ सनिर्जलां-
 बुदाकारं मत्तं मदजलोन्नितम् । आरुह्यैरावतं नागपात्रगाग मही-
 तलम् ॥ २ ॥ स ददर्शापविष्टं वै गोवर्धनशिलातले । कृष्णम-
 क्लिष्टकर्माणं पुरुहूतः पुरन्दरः ॥३॥ तं वीक्ष्य बालं महता तेजसा
 दीप्तगन्धयम् । गोपवेशधरं विष्णुं प्रीतिं लेभे पुरन्दरः ॥ ४ ॥
 तं सांबुजलदशयामं कृष्णं श्रीवत्सलक्षणम् । पर्याप्तनयनः शक्रः
 सर्वैर्नैरुद्वैजत ॥ ५ ॥ दृष्ट्वा चैनं श्रिया जुष्टं मर्त्यलोकेऽप-
 रोगम् । सूपविष्टं शिलापृष्ठे शक्रः सत्रीडितोऽभवत् ॥ ६ ॥
 तस्थोगनिष्टस्य मुखं पक्षाभ्यां पक्षिपुङ्गवः । अन्तर्धानं गतश्चाप्यां
 चकारोगभोजनः ॥ ७ ॥ स विविके वनगतं लोकवृचान्त-
 तत्परम् । उपतस्थे गजं हित्वा कृष्णं बलनिपदनः ॥ ८ ॥ स

श्रीकृष्णका दर्शन करना चाहने लगा ॥१॥ और निर्जल
 मेघकी, समान आकार वाले मदजलसे गीले शरीर वाले मदगत
 ऐरावत नाग पर चढ़ कर पृथ्वी पर आया २ उस समय पुरुहूत
 पुरन्दरने सरलतासे कर्म करने वाले श्रीकृष्णको गोवर्धनकी
 शिला पर बैठे हुए देखा ३ इन्द्र अच्युत विष्णुको तेजसे दीप्त
 गीग बालकके भेषों बैठे देख कर प्रसन्न हुआ ४ इन्द्र अपने
 सूत्र नेत्रोंसे जलभरे मेघकी समान श्याम और श्रीवत्सके चिन्हसे
 चिन्हित विष्णुको देख कर पर्याप्तनयन होगया अर्थात् उसके नेत्र
 सफल होगए ५ शोभासंपन्न श्रीकृष्णको मृत्युलोकमें देवताही
 समान शिलातल पर बैठे देख कर इन्द्र लज्जित हो गया ६
 सर्पोंका भक्षण करने वाले पक्षिपुङ्गव गरुड़ अन्तर्धान रह कर
 अपने पंखोंसे बैठे हुए श्रीकृष्णके मुख पर आया डाल रहे थे ७
 वनमें अकेले बैठे हुए लोकव्यवहार करनेमें परायण श्रीकृष्णके
 पास बल दैत्यका नाश करने वाला इन्द्र अपने हाथी परसे उतर
 कर उनके पास पहुँचा ८ उनके पास पहुँचने पर दिव्य माला

समीपगतस्तस्य दिव्यस्रगनुलेपनः । रराज देवराजो वै वज्रपूर्ण-
 करः प्रभुः ॥६॥ किरीटेनार्कतुल्येन विद्मद्गुणकारिणा । कुण्ड-
 लाभ्यां स दिव्याभ्यां सततं शोभिताननः ॥१०॥ पञ्चस्तवक-
 लम्बेन हारेणोरसि भूषितः । सहस्रगत्रकान्तेन देहभूषण-
 कारिणा । ईक्ष्णुमाणः सहस्रेण नेत्राणां कामरूपिणाम् ॥ ११ ॥
 त्रिदशान्नापनार्थेन मेघनिर्घोषकारिणा । अथ दिव्येन मधुरं
 व्याजहार स्वरेण तम् ॥ १२ ॥ कृष्ण कृष्ण महाबाहो ज्ञातीनां
 नन्दिवर्धन । अतिदिव्यं कृतं कर्म त्वया भीतिमता गवाम् ॥१३॥
 मयोत्सृष्टेषु मेघेषु युगान्तावर्तकारिणु । यत्त्वया रक्षिता गावस्ते-
 नास्मि परितोषितः ॥ १४ ॥ स्वायंभुवेन योगेन यथायं पर्वतो-
 त्तमः । घृतो वेश्मवदाकाशे को ह्येतेन न विस्मयेत् ॥ १५ ॥ प्रति-

और दिव्य चन्दन लगाने वाला और हाथमें वज्रको धारण करने
 वाला और विजलीकी समान प्रकाश फैलाने वाले सूर्यकी समान
 कान्तिवाले किरीटको धारण करने वाला और दिव्य कुण्डलों
 से सुशोभित मुख वाला देवराज प्रभु इन्द्र शोभा पाने लगा ६-१०
 उसका वज्रः स्थूल पाँच गुच्छों वाले गलेमें लटकते हुए हारसे
 विभूषित हो रहा था और सहस्रदलकगलके भूषणोंको देह पर
 धारण कर रहा था वह कामरूपी सहस्र नेत्रोंसे श्रीकृष्णको देखने
 लगा ११ तदनन्तर देवताओंकी आज्ञासे अपने मेघकी सगान
 गंभीर दिव्य और मधुर स्वरमें श्रीकृष्णसे कहने लगा १२ कि
 हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महाभुज ! हे अपनी जाति वालोंको
 आनन्द देने वाले! तुमने गौओं पर प्रसन्न होकर अति दिव्य कर्म
 किया है १३ तुमने मेरे भेजे हुए युगान्तकी समान वर्षा करने
 वाले मेघोंसे भी गौओंकी रक्षा कर ली, इससे मैं प्रसन्न होगया
 हूँ १४ तुमने स्वायंभुवयोगसे इस पर्वतको आकाशमें धरकी
 समान धारण कर लिया था, यला इस कर्मसे किसे आश्चर्य न

पिद्धे मम महे ममेणं हपितेन वै । अतिवृष्टिः कृता कृष्ण गथां वै
 सप्तरात्रिकी ॥ १६ ॥ सा त्वण प्रतिपिद्धेयं मेघवृष्टिदुरासदा ।
 देवैः सदानवगणैर्दुर्निवार्या मयि स्थिते ॥ १७ ॥ अहो मे सुप्रियं
 कृष्ण यत्त्वं मानुषदेहवान । सगग्रं वैष्णवं तेजो विनिर्गृहसि
 रोपितः ॥ १८ ॥ साभितं देवतानां हि मन्वेऽहं कार्यमव्ययम् ।
 त्वयि मानुष्यमापन्ने युक्ते वैष्णवतेजसा ॥ १९ ॥ सेत्स्यते सर्व-
 कार्याणि न किञ्चित् परिहास्यते । देवानां यद्भवान्नेता सर्वकार्य-
 पुरोगमः ॥ २० ॥ एकस्त्वमसि देवानां लोकानां च सनातनः ।
 द्वितीयं नानुपश्यामि यस्तेषां च धुरं बहेत् ॥ २१ ॥ यथा हि
 पुद्गवः श्रेष्ठो ह्यग्रे धुरि नियोज्यते । एवं त्वमसि देवानां गजानां
 द्विनवाहन ॥ २२ ॥ त्वच्छरीरगतं कृष्ण जगत्प्रकरणं त्विदम् ।

होगा १५ हे कृष्ण ! अपने महोत्सवके बन्द होने पर मैंने क्रोध
 में भर कर गाँवोंके ऊपर सात रात तक वर्षा बरसाई थी १६
 उस दुरासद मेघवृष्टिको तुमने निष्फल कर दिया, मेरे सामने
 खड़े होने पर तो इसका देवता और दानव भी नहीं सह
 सकते १७ हे श्रीकृष्ण ! तुमने मेरा यह परम प्रिय कार्य किया
 कि तुमने मनुष्यका रूप धारण करनेके कारण क्रोध आने पर भी
 अपने सगग्र वैष्णव तेजको नहीं दिखाया (इस प्रकार अपनेको
 छिपा लिया) १८ जब आप देवताओंके नेता हेर गए हैं और
 उनके सब कार्योंमें अग्रणी बनजाते हैं तो मैं सप्रभता हूँ कि-
 आप देवताओंके सारे कार्योंको सिद्ध कर लेंगे, आप मनुष्य बन
 गए हैं अब आपके तेजसे सब कार्य सिद्ध होजायगा, कुछ बाकी
 नहीं रहेगा १९ २० तुम देवताओंमें एक हो और लोकोंमें सनातन
 हो, मैं ऐसा और किसीको नहीं देखता जो देवताओंके कार्यभार
 को उठासके २१ जैसे श्रेष्ठ बैलको ही जुएमें सबसे आगे जाता
 जाता है इसी प्रकार हे द्विनवाह! तुम डूबते हुए देवताओंके कार्य

ब्रह्मणा साधु निर्दिष्टं धातुभ्य इव काञ्चनम् ॥ २३ ॥ स्वयंभू-
 र्भगवान् श्रेष्ठो बुद्ध्याथ त्रयसापि वा । न त्वाऽनुगन्तुं शक्नोति
 पंगुर्दुतगतिं यथा ॥ २४ ॥ स्थाणुभ्यो हिमवान् श्रेष्ठो हृदानां
 वरुणालयः । गरु-मान् पत्तिष्ठां श्रेष्ठो देवानां च तथा भवान् २५
 अपामघस्ताञ्जलोको वै तस्योपरि महीधराः । नगानांशुपरिष्ठाद् भूः
 पृथिव्युपरि मानुषाः ॥ २६ ॥ मनुष्यलोकादूर्ध्वं तु खगानां गति-
 रुच्यते । आकाशम्योपरि रविर्द्वारं स्वर्गस्य भानुमान् ॥ २७ ॥ देव-
 लोकः परस्तस्माद्विमानगमनो महान् । यत्राहं कृष्ण देवानामैद्रे
 विनिहितः पदे ॥ २८ ॥ स्वर्गादूर्ध्वं ब्रह्मलोको ब्रह्मर्षिगणसेवितः ॥
 तत्र सोमगतिश्चैव ज्योतिषां च महात्मनाम् ॥ २९ ॥ तस्योपरि

में भवसे पहिले (जाते जाते हो २२ यह सब जगत् आपके ही
 शरीरसे रचा हुआ है, जैसे धातुओंमें सुवर्ण उत्कृष्ट है, इसी
 प्रकार ब्रह्माजीने आगे उत्कृष्ट कहा है २३ जैसे पंगु (लँगड़ा)
 फुर्तीसे चलने वालेकी समान नहीं होसकता, इसी प्रकार भगवान्
 ब्रह्माजी भी बुद्धि वा अवस्थामें आपसे श्रेष्ठ वा आपकी समान
 नहीं होसकते २४ जैसे पहाड़ोंमें हिमाचल श्रेष्ठ है और सरोवरों
 में समुद्र श्रेष्ठ है और जैसे पत्तियोंमें गरुड़ श्रेष्ठ है, इसी प्रकार
 देवताओंमें आप श्रेष्ठ हैं २५ जहाँ लोक नीचे हैं, उसके ऊपर
 पहाड़ है (जैसे समुद्रमें पड़ी हुई नावको उसमें लगी हुई और
 नीचेमें लगी हुई कीलें रोके रहती हैं जैसे ही पृथ्वीमें पहाड़
 रोकरहे ह अत एव) पहाड़ोंके ऊपर पृथिवी है और पृथिवी पर
 मनुष्य रहते हैं २६ मनुष्यलोकसे ऊपर आकाशचारी गमन कर
 सकते हैं आकाशके ऊपर सूर्य रहता है वह किरणों वाला सूर्य स्वर्ग
 का द्वाररूप है २७ उससे आगे देवलोक है उस बड़े भारी लोकमें
 विमानपर बैठ कर चला जासकता है हे कृष्ण ! तहाँ पर मैं देवता
 ओंके इन्द्र पद पर रहता हूँ २८ स्वर्गसे ऊपर ब्रह्मर्षियोंसे सेवित

गवां लोकः साध्यास्तं पालयन्ति हि । स हि सर्वगतः कृष्ण
महाकाशगतो महान् ॥ ३० ॥ उग्युपरि तत्रापि गतिस्तव तपो-
मयी । यां न विद्मो वयं सर्वे पृच्छन्तोऽपि पितामहम् ॥ ३१ ॥
लोकस्त्वथोदुष्कृतिनां नागलोकस्तु दारुणः । पृथिवी कर्मशीलानां
क्षेत्रं सर्वस्य कर्मणः ॥ ३२ ॥ स्वगस्थिराणां निपथो वायुना तु न्य-
वृत्तिनाम् । गतिः शमदमादधानां स्वर्गः सुकृतकर्मणाम् ३३ ब्राह्मे
तपसि युक्तानां ब्रह्मलोकः परा गतिः । गवामेव तु गोलोको दुरा-
रोहा तु सा गतिः ॥ ३४ ॥ स तु लोकरस्त्वया कृष्ण सीदमानः

ब्रह्मलोक है तहाँ पर महात्मा सोम और नक्षत्र जा सकते है २६
उसके ऊपर गोलोक है साध्य उसका पालन करते हैं, हे कृष्ण !
वह सर्वगत है और वह महान लोक महाकाशमें रहता है ३०
इसके भी-ऊपर आपकी तपोमयी गति है, उसको पितामहसे
बुझने पर भी हम नहीं जान सके ॥ ३१ ॥ पापियोंको नागलोक
रूप दारुण लोक नीचे मिलता है कर्मशीलपुरुषोंके लिये पृथिवी
सब कर्मोंके वपन करनेका क्षेत्ररूप है ॥ ३२ ॥ वायुकी समान
चंचल वृत्ति वाले पुरुषोंका आकाश निपथ है और शमदम-
सम्पन्न पुण्यात्माओंकी गति स्वर्ग है ॥ ३३ ॥ ब्रह्ममय तप करने
वालोंको अधिकसे अधिक ब्रह्मलोक मिलता है और गौओंको
तो गोलोक मिलता है (औरोंको तप करके भी) उस गतिग
मिलना दुर्लभ है ॥ ३४ ॥ हे कृष्ण ! (वह गोलोक तुम्हारे
साथ ही पृथिवी पर उतर आया था) उसके कष्ट पाने पर
आपसे धैर्यवान् कुशल पुरुषोंने गौओंके उपद्रवोंको नष्ट कर उस
(गोलोक) में धारण किया है (श्रुतिमें भी लिखा है, कि-
तावां वास्तूधुरपसिगमध्वै यत्र गानो भूरिशुद्धा अयासः । अत्रा-
हत दुरुगा यस्य वृषणं परमं पदमवभाति भूरि" अर्थात्-आप
(राम कृष्ण) के रमणीय स्थानोंमें हम जाना चाहते हैं, परन्तु

कृतात्मना । धृतो धृतिमता वीर निघ्नतोपद्रवान् गत्राम् ॥ ३५ ॥
तदहं सगनुनाप्तो गवां वाक्येन चोदितः । ब्रह्मणश्च महाभाग
गौरवात्तत्र चागतः ॥ ३६ ॥ अहं भूतपतिः कृष्ण देवराजः
पुरन्दरः । अदितिर्गर्भपर्याये पूर्वजस्ते पुरा कृतः ॥ ३७ ॥ स्व-
तेजस्तेजसा चैव यत्ते दर्शितवानहम् । मेघरूपेण तत्सर्वं क्षन्तु-
मर्हसि मे विभो ॥ ३८ ॥ एवं ज्ञान्तमनाः कृष्ण स्वेन सौम्येन
तेजसा । ब्रह्मणः शृणु मे वाक्यं गवां च गजविक्रम ॥ ३९ ॥
आह त्वां भगवान् ब्रह्मा गावश्चाकाशगा दिवि । कर्मभिस्तो-
पिता दिव्यैस्तत्र संरक्षणादिभिः ॥ ४० ॥ भवता रक्षिता गावो
गोलोकरत्र महानयम् । यद्वयं पुङ्गवैः सार्धं वर्धामः प्रसवैस्तथा ४१
कर्षुकान् पुंगवैर्वाह्वैर्मध्येन हविषा सुगान् । श्रियं सकृत् पट्टचोन
तर्हां जा नहीं सकते,आपके उन रागणीय स्थानोंमें बड़े २ सींगों
वाली गौएँ विचरण करती हैं, आनन्द वर्षा करने वाले और
महायशस्वी आपका वह गोलोक इस पृथिवीमें और भी अधिक
शोभा देता है ॥३५॥ अत एव गौओंके वाक्यसे प्रेरित होकर
मैं यहाँ आया हूँ और हे महाभाग!ब्रह्माजीके वाक्यसे और आपके
गौरवसे भी मैं यहाँ आया हूँ ॥ ३६ ॥ हे कृष्ण ! मैं भूतपति
देवराज पुरन्दर हूँ और अदितिगर्भकी गणनामें मैं तुमसे
पहिले उत्पन्न हुआ था ॥ ३७ ॥ हे विभो ! मैंने मेघरूपसे जो
अपना तेज आपके दिखाया, सो आप ज्ञमा करिये ॥ ३८ ॥
हे कृष्ण ! अब आप शान्त होजाइये हे गजविक्रम ! आप
सौम्य मनसे ब्रह्माजीके गौओंके और मेरे वाक्यको सुनिये ३९
स्वर्गमें भगवान् ब्रह्माजीने और तुम्हारे रक्षण आदि कर्मोंसे
सन्तुष्ट हुई आकाशस्थित गौओंने तुमसे कहा है, कि-॥४०॥
आपने गौओंकी और इस महान् गोलोककी रक्षा की है अब
हम टपगों और बत्सोंके साथ बड़ रही हैं ४१ हम इच्छानुसार

तर्पयिष्याम कामगाः ॥ ४२ ॥ तदस्माकं गुरुस्त्वं हि प्राणदश्च
महाबलः । अथ प्रभृति नो राजा त्वमिन्द्रो वै भव प्रभो ॥४३॥
तस्मात्त्वं काञ्चनैः पूर्णैर्दिव्यस्य पयसो घटैः । एभिरद्याभि-
पिचस्व मया इत्यावनामितैः ॥ ४४ ॥ अहं किलेद्रो देवानां त्वं
गवामिन्द्रतां गतः । गोविन्द इति लोकस्त्वां स्तोष्यन्ति भुवि
शाश्वतम् ॥४५॥ मगोपरि यथेन्द्रस्त्वं स्थापितो गोपिरीश्वरः ।
उपेन्द्र इति कृष्ण त्वां गास्यन्ति दिवि देवताः ॥ ४६ ॥ ये चेमे
वार्षिका मासाश्चत्वारो विहिता मम । एषामर्धं प्रयच्छामि शर-
त्कालं तु पश्चिमम् ॥ ४७ ॥ अथ प्रभृति मासौ द्वौ ज्ञास्यन्ति मम
मानवाः । वर्षार्धे च ध्वजो मह्यं ततः पूजामवाप्स्यसि । मर्षावु-

चलने वाली गौएँ हल खेचने वाले वृषभोंसे कृषकोंको और
पवित्र हविते देवताओंको और एक बार दुग्धके प्रयत्न होने
पर कान्तिको बढ़ावेगी ॥४२॥ इस लिये महाबली आप हमारे
गुरु और माण्डाता हैं, हे प्रभो ! आजसे आप हमारे राजा
और इन्द्र बनिये ॥ ४३ ॥ (इन्द्रने कहा कि-) इस लिये आप
सुवर्णके कलशोंमें भरे हुए दिव्य जलसे जिसका कि-मैं
अपने हाथसे अभिषेक करूँगा उन पयोंसे आप अभिषेक कर-
वाइये (श्रुतिमें लिखा है, कि-“अपभं-मासपानानां सपत्नानां
विप्रासहिम् । हन्तारं शत्रूणां कृधि त्रिराजं गोप्रति गवाम्”) ४४
में देवताओंका इन्द्र हूँ और आप गौओंके इन्द्र बन गए
हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, मनुष्य पृथिवीमें गोविन्दनामसे
आपकी स्तुति करेंगे ॥ ४५ ॥ गौओंने तुम्हें मेरे ऊपर
ईश्वर और इन्द्र बना दिया है इसी लिये स्वर्गमें देवता
आपको उपेन्द्र नामसे पुकारेंगे ॥ ४६ ॥ मेरे पास वर्षा ऋतुके
चार महीने हैं उनमेंसे आधे पिछले शरत्कालको मैं आपके लिये
देता हूँ ॥ ४७ ॥ आजसे मनुष्य मेरे दो महीनों (श्रावण भाद्र-

प्रभवं दर्पं तदा त्यजन्ति वह्निः ॥४८॥ अल्पवाचो गतमदा
ये चान्ये येनानादिनः । शान्तिं सर्वे गमिष्यन्ति मम कालविचा-
रिणः ॥४९॥ त्रिशंकुगस्त्याचरितामाशां च प्रचरिष्यति । सहस्र-
रश्मिरादित्यस्तापयन् स्वैन तेजसा ॥५०॥ ततः शरदि युक्तायां
मानकामेषु वह्निषु । याचमाने स्वर्गे तोयं विप्लुतेषु प्लवेषु च ५१
हंससारसपूर्येषु नदीनां पुलिनेषु च । मत्तक्रौंचमणादेषु गमत्त-
टपमेषु च ॥ ५२ ॥ गोषु चैव महृष्टासु क्षरन्तीषु पयो बहु ।
निवृत्तेषु च मेघेषु निर्गत्य जगता जलम् । आकाशे शस्त्रसंकाशे
हंसेषु च चरत्सु च । जातगन्धेषु तोमेषु वापीषु च समःसु च ५४

पद) को जानेगे और आभी वर्षा ऋतु बीतने पर (आश्विन
शुक्ला प्रतिपदाके दिन मेरा ध्वज (व्रतसमाप्तिका चिन्ह खंडा
क्रिया जायगा, तदनन्तर आपकी पूजा होने लगेगी, और उस
समय मोर मेरे जलसे उत्पन्न हुए मदको त्याग दिया करेंगे ४८
और जो मेघको देख कर नाद करते हैं वे सब भी मेरे समयको
विचार कर अपने मदको त्याग देंगे और उनकी वाणी हन्की हो
जाया करेगी ॥ ४९ ॥ और सहस्र किरणों वाले सूर्य भी अपने
तेजसे तपतेहुए त्रिशंकु और अगस्त्यसे सेवित दक्षिण
दिशामें भ्रमण करने लगेंगे ॥ ५० ॥ तदनन्तर शरद ऋतुके
समय मयूर चुप रहना अच्छा समझने लगेंगे और चातक जल
की चाहना करने लगेगा और नदियोंके पूर जाते रहेंगे ५१
और नदियोंके रेतें हंस और मारसोंसे भर जावेंगे और कौंच
मच होकर नाद करने लगेंगे और टपम गस्त होजावेंगे ॥ ५२ ॥
और गौंसे मसन्न होकर बहुतसा ध्व देने लगेंगी और मेघ जगत्
में जल बरसा कर भाग जावेंगे ॥ ५३ ॥ और हंसोंके भ्रमण
करनेके कारण आकाश शस्त्रकी सगान (निर्मल दीखने लगेगा)
और बावड़ी तथा तालाबोंके जलोंमें कमल उत्पन्न होजाया

तडागेषु च कान्तेषु तोयेषु निमलेषु च । कलमाचनताग्रासु कृष्ण
 फेदारपंक्तिषु ॥ ५५ ॥ मध्यस्थं सलिलारम्भं कुर्वन्तीषु नदीषु
 च । सुसर्षा च सुसीमार्या मनोहर्या मुनेरपि ॥ ५६ ॥ पृथिव्यां
 पृथुराष्ट्रायां रम्यार्था वर्षसंज्ञये । श्रीमत्सु पंक्तिमार्गेषु फलवत्सु
 तृणेषु च । इक्षुमत्सु च देशेषु मृत्तुषु पत्तुषु च ॥ ५७ ॥
 ततः प्रवत्स्यते पुण्या शरत् सुप्तोत्थिते त्वयि । लोरेऽस्मिन्
 कृष्ण निखिले यथैव त्रिदिवे तथा ॥ ५८ ॥ नरास्त्वां
 चैव गां चैव ध्वजाकारासु यष्टिसु । महेंद्रं चाप्युपेन्द्रं च
 महयन्ति गहीतले ॥ ५९ ॥ ये चात्रयोः स्थिरे वृत्ते महेन्द्रोपेन्द्र-
 संज्ञिते । मानवाः प्रणमिष्यन्ति तेषां नास्त्यनयागमः ॥ ६० ॥
 ततः शकस्तु तान् गृह्य घटान् दिव्यपयोधराम् । अभिषेकेण-

करेंगे ॥ ५४ ॥ जल निर्मल होनेसे तडाग मनोहर दीखने लगेंगे
 और काली य्यारियोंकी पंक्तियोंमें धान्योंके अग्रभाग लटकने
 लगेंगे ॥ ५५ ॥ और नदियें अपने जलको मध्यमें करना आरभ
 कर देंगी और मुनियोंकी भीसीमाओंमें पृथ्वी धान्योंसे मनोहर
 दीखने लागेगी ॥ ५६ ॥ वर्षा ऋतुके अनन्तर अनेक राष्ट्रों वाली
 पृथ्वी रमणीय दीखने लागेगी और पंक्तिमार्गोंमें शोभा फल और
 तृण फल जावेंगे और स्थान २ पर गन्ने दीखने लगेंगे और
 (वाजपेय आदि) यज्ञ होने लगेंगे ॥ ५७ ॥ स्वर्गमें आप जब
 शयन करनेके बाद उठते हैं तब जैसे पुण्यमयी शरद ऋतु चलने
 लगती है, इसी प्रकार इस सारे लोकमें भी यह ऋतु वर्तने
 लगेगी ॥ ५८ ॥ गहीतलके मनुष्य मुझ इन्द्रकी और आप उपेन्द्र
 की इस प्रकार दोनोंकी ध्वजाकार यष्टियोंमें पूजा करेंगे ॥ ५९ ॥
 जो हमारे महेन्द्रोपेन्द्रोत्सव नागरक शरवत उत्सवमें हमें प्रणाम
 करेंगे उनको अनीतिका भय नहीं रहेगा ॥ ६० ॥ तदनन्तर योगज्ञ
 इन्द्र मन्दाकिनीके दिव्य जलसे भरे हुए घड़ोंको उठा कर श्रीकृष्ण

गोविन्दं योजयापास योगवित् ॥ ६१ ॥ दृष्ट्वा तमभिपिक्तं तु
गावस्ताः सह यूथपैः । स्तनैः प्रसूयुक्तैश्च सिपिचुः कृष्णगव्य-
यम् ॥६२॥ मेघाश्च दिविमुक्ताभिः सामृताभिः समंततः । सिपि-
चुस्तोयधाराभिरभिपिच्य तगव्ययम् ॥ ६३ ॥ वनस्पतीनां सर्वेषां
सुस्रावेन्दुनिभं पयः । ववर्षुः पुष्पवर्षं च नेदुर्तूर्गाणि चाम्बरे६४
अस्तुवन् मुनयः सर्वे वाग्भिर्मंत्रपरायणाः । एकार्णवे त्रिविक्तं च
दधार वसुधा वपुः ॥ ६५ ॥ प्रसादं सागरा जग्मुर्वबुर्वाता जग-
द्विताः । मार्गस्थोऽपि वभौ भानुरवन्द्रो नत्तत्रसंयुतः ॥ ६६ ॥
ईतयः प्रशमं जग्मुर्निर्वैरचना नृपाः । प्रवालापत्रशवलाः पुष्प-
वन्तश्च पादपाः ॥६७॥ मदं प्रसूतु बुर्नागा योतास्तोपं वने मृगाः ।

का अभिपेक करने लगा ॥ ६१ ॥ श्रीकृष्णको अभिपिक्त देखा
कर स्वर्गमें स्थित गौश्रोने दुग्धको टपका कर और उनके यूथपों
वे (उनका दुग्ध लेकर) अव्यय श्रीकृष्णका अभिपेक किया ६२
तदनन्तर मेघोंने स्वर्गमें स्थित अमृतसे मिली हुई जलधाराओंसे
श्रीकृष्णका अभिपेक किया तदनन्तर (सोमने) सब वनस्पतियों
के चन्द्रमाकी समान (शीतल) जलकोवरसाया इस प्रकार अव्यय
श्रीकृष्णका अभिपेक होनेके अनन्तर आकाशमेंमे (देवता)
पुष्पोंकी वर्षा करने लगे और तूर्य (अपने आप ही) बजने
लगे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ और मंत्रपरायण मुनि वाणियोंसे श्रीकृष्ण
की स्तुति करने लगे और पृथिवीने एकार्णवसे पृथक हुए अपने
शरीरको धारण कर लिया अर्थात् क्षीरसमुद्रके मध्यमें विराजमान
पृथिवी भी क्षीरमयी होगई, इससे सब क्षीरमय समुद्र होगया ६५
उस समय समुद्र प्रसन्न होगए और जगत्का हित करने वाला
मंगलमय पवन चलने लगा और मार्गस्थित सूर्यभी दिग्ने लगा
और चन्द्रमा नत्तत्रोमे संयुक्त होगया ॥ ६६ ॥ (अतिवृष्टि आदि)
ईतिषे नष्ट होगई और राजा वैर त्याग करनेकी मंत्रणायें करने

अलंकृता गात्ररुद्धैर्धातुभिर्भान्ति पर्वताः ॥ ६८ ॥ देवलोकसगो
 लोकस्तृप्तोऽमृतरसैरिव । आसीत् कृष्णाभिपेको हि दिव्यस्वर्ग-
 रसोन्नितः ॥ ६९ ॥ अभिपिक्तं तु तं गोभिः शक्तो गोविन्द-
 गन्धयम् । दिव्यमाल्याम्बरधरं देवदेवोऽब्रवीदिदम् ॥ ७० ॥ एष
 ते प्रथमः कृष्ण नियोगो गोषु यः कृतः । श्रूयतामपरं कृष्ण गमा-
 गमनकारणम् ॥ ७१ ॥ क्षिप्रं प्रसाध्यतां कंसः केशी च तुरगा-
 धमः । अरिष्टश्च मदाविष्टो राजराज्यं ततः कुरु ॥ ७२ ॥ पितृव-
 स्रि जातस्ते गमाशोहमिच स्थितः । स ते रक्षश्च मान्यश्च
 सग्व्ये च विनियुज्यताम् ॥ ७३ ॥ त्वया ह्यनुग्रहीतः संस्तृष्टानु-
 वर्तकः । त्वद्वशे वर्तमानश्च भाप्स्यते त्रिपुलं यशः ॥ ७४ ॥ भार-

लगे और वृत्तों पर फल पत्र और पुष्प आने लगे ॥ ६७ ॥
 हाथी मद टाकाने लगे और मृग वनमें मसन्न होगए और वृत्तों
 से अलंकृत पर्वत धातुओंसे शोभा पाने लगे ६८ जैसे अमृतरस
 से देवलोक तृप्त रहता है, इसी प्रकार मनुष्यलोक तृप्त रहने लगा
 इस प्रकार दिव्य स्वर्ग रससे श्रीकृष्णका अभिपेक हुआ था ६९
 गौओंके द्वारा अभिपिक्त दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण
 करने वाले अच्युत गोविन्दसे देवदेव इन्द्रने कहा, कि-७० हे
 कृष्ण ! गौओंकी द्वाजा मेरे आनेका प्रथम कारण है, हे कृष्ण !
 अब तुम मेरे आगमनके दूसरे कारणको सुनो ७१ आप कंस
 अश्वोंमें नीच-केशी और घमण्डी अरिष्टका शीघ्रतासे बध करिये
 और तदनन्तर राजराज्य करिये ७२ तुम्हारी बुझावे मेरा अंश
 उत्पन्न हुआ है वह मेरी समान ही है उस (अर्जुन) की तुम
 रक्षा करना और उसका मान रखना और उसको तुम अपना
 मित्र बना लेना ७३ यदि आप उस पर अनुग्रह करेंगे तो वह
 आपके चरित्रका अनुवर्दन कर आपके वशमें रह कर त्रिपुल
 कीर्तिके पा सकेगा ७४ वह भरननंशिपोंके अनुग्रह श्रेष्ठ धनुर्धर

तस्य च वंशस्य स वरिष्ठो धनुर्धरः । भविष्यत्यनुरूपश्च त्वद्वते
 न च रंस्यते ॥ ७५ ॥ भारतं त्वयि चायत्तं तस्मिंश्च पुरुषोत्तमे ।
 उभाभ्यामपि संयोगे यास्यन्ति निधनं नृपाः ॥ ७६ ॥ प्रतिज्ञातं
 गया कृष्ण ऋषिमध्ये सुरेश्वर । मया पुत्रोऽर्जुनो नाम सृष्टः
 कुन्त्या कुलोद्भवः ॥ ७७ ॥ सोऽस्त्राणां पारतत्त्वज्ञः श्रेष्ठथाप-
 विकर्षणे । तं प्रवेक्ष्यन्ति वै सर्वे राजानः शस्त्रयोधिनः ॥ ७८ ॥
 अर्क्षीहिणीस्तु शूराणां राज्ञां संग्रामशालिनाम् । स एकः क्षत्र-
 धर्मेण योजयिष्यति मृत्युना ॥ ७९ ॥ तस्यास्त्रचरितं मार्गं धनुषो
 लाघवेन च । नानुयास्यन्ति राजानो देवा वा त्वां विना प्रभोऽऽ
 स ते बन्धुः सहायश्च संग्रामेषु भविष्यति । तस्य योगो विधा-
 तन्यस्त्वया गोविन्द मत्कृते ॥ ८१ ॥ दृष्टव्यश्च यथाहं वै त्वया

होगा और वह आपके बिना प्रसन्न नहीं रहा करेगा ७५ तुम्हारे
 और उस पुरुषोत्तमके ऊपर ही भरतवंशियोंके युद्धका भार
 रक्खा जावेगा और तुम दोनोंके संयोगसे राजाओंका मरण हो
 जावेगा ७६ हे सुरेश्वर ! हे श्रीकृष्ण ! मैंने ऋषियोंके मध्यमें
 प्रतिज्ञा की थी, कि-मैंने कुलको उठाने वाला अर्जुन नामक पुत्र
 कुन्तीमें उत्पन्न किया है ७७ वह अस्त्रोंके परम तत्त्वको जानता है
 और धनुष खेंचनेमें समर्थ है सब शस्त्रयोधी राजे उसमें ही लीन
 हो जावेंगे ७८ और वह संग्राम करने वाले शूर राजाओंकी
 अर्क्षीहिणियोंके अकेला ही क्षत्रधर्मसे मृत्युके आधीन कर
 देगा ७९ उसके अस्त्र चलानेके मार्गमें देवता और राजे भी नहीं
 जासकेंगे और हे प्रभो ! आपके अतिरिक्त उसकी सी धनुषकी
 फुर्तीको भी और कोई नहीं दिखा सकेगा ८० वह आपका बन्धु है
 और वह संग्रामोंमें आपकी सहायता पायेगा, हे गोविन्द तुम उस
 को मेरे कहनेसे अध्यात्मविद्याका उपदेश देना ॥ ८१ ॥
 निम्न प्रकार में अर्जुनको देखना है, उसी प्रकार आप अर्जुनको

मान्यश्च नित्यशः ज्ञाता त्वमेव लोकानामर्जुनस्य च नित्यशः ८२
 त्वया च नित्यं संरक्ष्य आह्वनेषु महत्सु सः । रक्षितस्य त्वया
 तस्य न मृत्युः प्रभविष्यति ॥ ८३ ॥ अर्जुनं विद्धि मां कृष्ण मां
 चैवात्मानमात्मना आत्मा तेऽहं यथा शरवत्तथैव तव सोऽर्जुनः ८४
 त्वया लोकानिमान् जित्वा बलेर्हस्तास्त्रिभिः क्रमैः । देवतानां
 हृतो राजा पुरा ज्येष्ठक्रमादहम् ॥ ८५ ॥ त्वां च सत्यमयं ज्ञात्वा
 सत्येष्टं सत्यविक्रमम् सत्येनोपेत्य देवा वै धौजयन्ति रिपुक्षयं ८६
 सोऽर्जुनो नाम मे पुत्रः पितुस्ते भगिनीसुतः । इह सौहार्दमायातु
 भूत्वा सहचरः पुरा ८७ तस्य ते युध्यतः कृष्ण स्वस्थानेऽपि गृहेऽपि
 वा । बोद्धव्या पुद्गलेनेव धूः सदा रणमूर्धनि ॥ ८८ ॥ कंसे विनि-
 हते कृष्ण त्वया भाव्यर्थदर्शिना । अभितस्तन्महद्युद्धं भविष्यति

देखें और सर्वदा उसका सन्मान करे आप लोकोंके ज्ञाता हैं,
 अतः आप अर्जुनका ध्यान सर्वदा रखना ८२ आप वड़े २ युद्धोंमें
 उसकी सर्वदा रक्षा करते रहना, यदि आप उसकी रक्षा करेंगे तो
 पृथु उसको दवा न सकेगी ८३ हे कृष्ण! आप अर्जुनको मेरी समान
 समझिये, और मुझे अपना समझिये जिस प्रकार मैं आपकी
 आत्मा हूँ इसी प्रकार अर्जुनको समझिये ८४ पहिले आपने बलिके
 साथसे तीन कदमोंमें इन लोकोंको जीतकर ज्येष्ठ होनेके कारण
 (वे मुझे सौंप दिये थे और मुझे) देवताओंका राजा बना
 दिया था ८५ आपको सत्यमय सत्येष्ट सत्यविक्रम जान कर
 देवता सत्यके द्वारा आपको प्राप्त होकर रिपुक्षयके कार्यमें आपको
 आगे खड़ा कर देते हैं ॥ ८६ ॥ वह अर्जुन नामक मेरा पुत्र
 मेरे पिताकी बहिनका पुत्र है, वह तुम्हारा सहचर बन कर
 मेरे साथ संपादन करे ॥ ८७ ॥ हे कृष्ण ! वह घरमें चाहे
 लणके भीखें पर युद्ध कर रहा हो आप पुंगवकी समान उसके
 भारको सदा धारण किये रहना ॥ ८८ ॥ हे कृष्ण ! आप

महीक्षिताम् ॥ ८६ ॥ तत्र तेषां नृवीराणापतिमानुषकर्मणाम् ।
 विजगस्यार्जुनो भोक्ता यशसा त्वं च योच्यसे ॥ ६० ॥ एतन्मे
 कृष्ण कात्स्नर्येन कर्तुमर्हसि भाषितम् । यद्यदन्ते सुराश्वैव सत्यं
 च मियमच्युत ॥ ६१ ॥ शक्यं वचनं श्रुत्वा कृष्णो गोविन्दतां
 गतः । प्रीतेन मनसा युक्तः प्रतिवाक्यं जगाद ह ॥ ६२ ॥ प्रीतोऽस्मि
 दर्शनादेव तव शक्र शचीपते । यत्तयाऽभिहितं चेदं न किञ्चित्
 परिहास्यते ॥ ६३ ॥ जानामि भद्रतो भावं जानाम्यर्जुनसंभवम् ।
 जाने पितृष्वसरं च पाण्डोर्दत्ता महात्मनः ॥ ६४ ॥ युधिष्ठिरं
 च जानामि कुमारं धर्मनिर्गितम् । भीमसेनं च जानामि वायोः
 संतानजं सुतम् ॥ ६५ ॥ अश्विभ्यां साधु जानामि सृष्टं पुत्रद्वयं
 शुभम् । नकुलं सहदेवं च माद्रीकुन्तिगतावुभौ ॥ ६६ ॥ कानीनं

भविष्यदर्शां हैं जब आप कंसको मार डालेंगे तब चारों ओर
 राजाओंमें घोर युद्ध होने लगेगा ॥ ८६ ॥ तब उन अमानुषी
 कर्म करने वाले नरवीरोंको अर्जुन जीतेगा और आपका यश
 फैलेगा ॥ ६० ॥ हे अच्युत ! हे कृष्ण ! यदि आपको मैं देवता
 और सत्य मिय हूँ तो मेरे सारे भाषणके अनुसार कार्य करिये
 इन्द्रके वचनको सुनकर गोविन्दपनको प्राप्त हुए श्रीकृष्णने
 मसन्न मनसे इन्द्रको उत्तर दिया, कि-॥ ६२ ॥ हे शचीपति
 इन्द्र ! मैं तो तुम्हारे दर्शनसे ही प्रसन्न होगया हूँ, तुमने जो
 कुछ बात कही है, इसमेंसे कुछ भी वाकी नहीं रक्खा जायगा ॥ ६३
 मैं तुम्हारे भावको जानता हूँ और अर्जुनकी उत्पत्तिको भी
 जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ मेरे पिताकी बहिन
 (बुआ) महात्मा पाण्डुको विनाही गई है ॥ ६४ ॥ और धर्म-
 राजके द्वारा निर्मित कुमार युधिष्ठिरको भी मैं जानता हूँ और
 वायुके पुत्र भीमसेनको भी मैं जानता हूँ ॥ ६५ ॥ और माद्रीकी
 कोखमें पहुँचे हुए अश्विनीकुमारोंके रचे हुए नकुल और सह-

चापि जानामि सचित्तुः प्रथमं सुतम् । पितृष्वसति पुत्र नै मसूतं
 मूनतां गतम् ॥ ६७ ॥ धार्तराष्ट्राश्च मे सर्वे विदिता युद्धकांक्षिणः ।
 पाण्डोरुपरमं चैव शापाशनिनिपातजम् ॥ ६८ ॥ तद्वच्च त्रिदिव
 शक सुवाग विदिर्वाकसाम् । नाजुर्नस्य रिपुः कश्चिन्मगाशो
 प्रभविष्यति ॥ ६९ ॥ अजुर्नार्थं च तान् सर्वान् पाण्डवानन्ततान्
 युधि । कुन्त्या निर्गतयिष्यामि निवृत्ते भारते मृधे ॥ १०० ॥
 यच्च वक्ष्यति मां शक तन्नूनस्तव सोऽजुर्नः । भृत्यवत्तत् करि-
 ष्यामि तव स्नेहेन यन्त्रितः ॥ १०१ ॥ सत्यसन्धस्य तच्छ्रुत्वा
 भियं भीतस्य भाषितम् । कृष्णस्य साक्षात् त्रिदिवं जगाम त्रिदशै
 श्वरः ॥ १०२ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे त्रिष्णुपर्वणि गोविंदाभिषेको
 नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

देव नामक दोनों शुभ पुत्रोंको भी जानता हूँ ॥ ६६ ॥ और
 कन्यामें उत्पन्न हुए सूर्यके प्रथम पुत्र (कर्ण)को भी मैं जानता
 हूँ, वह मेरी बुझासे उत्पन्न हुआ है और वह सूत कहलाने लगा
 है ॥ ६७ ॥ और मैं युद्धाभिलाषी धृतराष्ट्रके सब पुत्रोंको भी
 जानता हूँ और शाप रूपी वज्र पडनेसे पाण्डुका मरण होगा
 इस बातसे भी मैं जानता हूँ ॥ ६८ ॥ हे शक ! इस लिये तुम
 देवताओंको सुख देनेके लिये स्वर्गको जाओ, मेरे सागने अर्जुन
 का कोई शत्रु न टिक सकेगा ॥ ६९ ॥ मैं अर्जुनके कारण
 उस महाभारत युद्धमें सब पाण्डुओंको अन्तत रख कर युद्ध-
 समाप्तिके अनन्तर कुन्तीको सौंप दूंगा ॥ १०० ॥ हे शक !
 तुम्हारा पुत्र अर्जुन मुझसे जो कुछ कहेगा उसको तुम्हारे स्नेहसे
 वैशा होनेके कारण अवश्य करूँगा ॥ १०१ ॥ देवताओंका ईश्वर
 इन्द्र मसन्न हुए सत्यसंध श्रीकृष्णके प्रिय भाषणको सुन कर
 स्वर्गको चला गया ॥ १०२ ॥ उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त १६

वैशम्पायन उवाच । गते शक्रं ततः कृष्णः पूज्यमानो ब्रजालयैः । गोवर्धनधरः श्रीमान् विवेश ब्रजमेव ह ॥ १ ॥ तस्य वृद्धाभिनन्दति ज्ञातयश्च सहोपिताः । धन्याः स्मांस्तुगृहीताः स्मस्त्वद्दृत्तेन नयेन च ॥ २ ॥ गात्रो वर्षभयात्तीर्णा वयं तीर्णा महाभयात् । तव प्रसादाद्गोविन्द देवतुल्यपराक्रम ॥ ३ ॥ अमानुषाणि कर्माणि तव पश्याम गोपते । धारणेनास्य शैलस्य विशस्त्वां कृष्ण देवनम् ॥ ४ ॥ कस्त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां च महाबलः । वसूनां वा किमर्थं च वसुदेवः पिता तव ५ बलं च वाल्प्ये क्रीडा च जन्म चास्मासु गर्हितम् । कृष्ण दिव्या च ते चेष्टा शंकितानि मनांसि नः ६ किमर्थं गोपवेषेण रमसेऽस्मासु गर्हि-

वैशम्पायनजीने कहा, कि-इन्द्रके चले जाने पर गोवर्धनधारी श्रीमान् श्रीकृष्ण गोपींसे पूजा पाते हुए ब्रजमें प्रवेश करने लगे ॥ १ ॥ उनकी जातिके वृद्ध पुरुष“ आपके चरित्रसे और भापकी नीतिसे हम धन्य होगए हैं और आपने हम पर परम अनुग्रह किया है” यह कह कर श्रीकृष्णकी प्रशंसा करने लगे २ हे गोविन्द ! हे देवनाओंकी समान पराक्रमी ! आपके प्रसादसे गाँव वर्षाके भयसे मुक्त होगई और हम भी बड़े भारी भयके पार पहुँच गए ॥ ३ ॥ हे गोपते ! हम देख रहे हैं,, कि-आपके सब कर्म अमानुषिक ही होरहे हैं, हे कृष्ण ! हम आपको देवता समझने लगे हैं ॥ ४ ॥ क्या तुम रुद्रोंमेंके कोई रुद्र हो ! अथवा तुम मरुद्राणोंमेंसे वा वसुओंमेंसे कोई मरुत् वा वसु हो ? तुम कौन हो ? वसुदेव तुम्हारे पिता किस प्रकार हैं ? ॥ ५ ॥ वाल्प्यकाल के आपके बलको देख कर प्रतीत होता है, कि-हमारे यहाँ आपका जन्म लेना हँसीकी सी बात है, हे कृष्ण ! आपकी चेष्टाएँ दिव्य हैं, उनको देख कर हमारे मन शंकित होरहे हैं ॥ ६ ॥ आप किस लिये गोपवेषसे हम लोगोंमें विचरण कर रहे हैं यह

तुम् । लोकपालो यमश्चैव गास्त्वं किं परिरक्षसि ॥ ७ ॥ देवो
वा दानवो वा त्वं यत्तो गन्धर्व एव वा । अस्माकं बान्धवो जातो
योऽसि सोऽसि नवोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ केनचिद्यदि कार्येण वससीह
यदृच्छया । वयन्तवानुगाः सर्वे भवन्तं शरण गताः ॥ ९ ॥ वैश-
म्पायन उवाच । गोपानां वचनं श्रुत्वा कृष्णः पद्मदलेक्षणः ।
प्रत्युवाच स्मितं कृत्वा ज्ञातीन् सर्वान् समागतान् ॥ १० ॥ मन्यते
मां यथा सर्वे भवन्तो भीमविक्रमम् । तथाऽहं नावम-तव्यः स्व-
जातीयोऽस्मि बान्धवः ॥ ११ ॥ यदि त्ववश्यं श्रोतव्यं कालं
संप्रतिपाल्यताम् । ततो भवन्तः श्रोष्यन्ति मां च द्रक्ष्यन्ति तत्त्वतः
यद्यहं भवतां श्लाघ्यो बान्धवो देवसत्रभः । परिज्ञानेन किं कार्यं
यद्येषोऽनुग्रहो मम ॥ १२ ॥ एवमुक्त्वास्तु ते गोपा वसुदेवसुतेन

तो गहिँत बात है, आप लोरुपालीकी समान हो कर भी गौओं
की रक्षा क्यों कर रहे है ॥ ७ ॥ आप देव हों, दानव हों, यत्त
हों वा गंधर्व हों, आप हमारे बान्धव बन कर उत्पन्न हुए हैं, अब
आप जो कुछ हों वह हों हम आपको मणाम करते है ॥ ८ ॥
प्रतीत होता है आप किसी कार्यको करनेके लिये अपनी इच्छासे
यहाँ वस रहे हैं ? हम सब आपके अनुचर हैं और आपकी शरण
है ॥ ९ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-गोपोंके वचनको सुन कर
कमलदलनयन श्रीकृष्णने मुस्कुरा कर सब आये हुए जाति वालों
से कहा, कि-॥ १० ॥ आप मुझे जिस प्रकार भयंकर पराक्रमी
समझते हैं, इस प्रकार कह कर आप मुझे लज्जित न करिये,
मैं तो आपका ही बान्धव हूँ ॥ ११ ॥ यदि आप इस बातको
अवश्य ही सुनना चाहते हों तो कुछ समयकी बाट देखिये, तब
आप सब सुन सकेंगे और मुझे वास्तविकरूपसे देख सकेंगे १२
यदि आप मुझे देवताकी समान मभाव वाला अपना श्लाघनीय
बान्धव मानते है, तो आपका यह मेरे ऊपर परम अनुग्रह है ?

वै । वृद्धमौना दिशः सर्वे भेजिरे पिहिताननाः ॥१४॥ कृष्णस्तु
 यौवनं दृष्ट्वा निशि चन्द्रमसो वनम् । शारदो च निशां रम्यां मन-
 रचके रतिं प्रति ॥१५॥ सकरीपांगराजासु व्रजरथ्यासु वीर्यवान् ।
 वृषाणां जातदर्पाणां युद्धानि समयोजयत् ॥ १६ ॥ गोपालांश्च
 बलोदग्रान् चोचयामास वीर्यवान् । वने स वीरो गारचैव जग्राह
 ग्राहवद्विभुः ॥ १७ ॥ युवतीर्गोपकन्यारच रात्रौ संकाल्य काल-
 वित् । कैशोरकं मानयन् वै सः ताभिर्मुभोद ह ॥१८॥ तास्तस्य
 वदनं कान्तं कान्ता गोपस्त्रियो निशि । पिबन्ति नयनाक्षपैर्गा
 गतं शशिनं यथा ॥१९॥ हरितालार्द्रपीतेन स कौशेयेन वाससा ।

फिर आप मुझे जानकर क्या करेंगे ॥ १३ ॥ वसुदेवपुत्रके इस
 प्रकार कहने पर वे गोप मौन हो गए और अपने मुखोंको बन्द
 कर अपने २ स्थानोंको चले गए ॥ १४ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्ण
 रात्रिमें चन्द्रमाके यौवन (कान्ति) को देख कर और शरत्कालीन
 रमणीय रात्रिको देख कर रति करना चाहने लगे ॥ १५ ॥
 वीर्यवान् श्रीकृष्णने अन्ने उपलोंके चूरोसे भरी हुई व्रजकी गलियों
 में दर्पणें भरें हुए सौँडोंका युद्ध छिड़वा दिया ॥ १६ ॥ और उन
 वीर्यवान् भगवान्ने उत्कट बली गोपालोंकी कुरती करवाई और
 उन वीर प्रभुने वनमेंसे गौआँको ग्राहकी समान पकड़ लिया १७
 और वह समयमें श्रीकृष्ण युवतीर्गोंको और गोपकन्याओंको
 अपने वशमेंकर, किशोरावस्थाका सम्मान करनेके लिये उनके
 साथ आनन्द पाने लगे (दश वर्षके बाद एकादश वर्ष आरंभ
 होने वाले समयका नाम किशोरावस्था है, उस अवस्थामें
 “प्रागुपनयनात् कामचाराद्यनुज्ञास्ति” अर्थात् उपनयनसे पहिले
 इच्छानुसार खेलनेकी अनुज्ञा है । इसी वाक्यका सत्कार करनेके
 लिये रासक्रीड़ा की गई थी) ॥ १८ ॥ रात्रिमें रमणीय गोप-
 स्त्रियों पृथ्वीमें उतरे हुए चन्द्रमाकी समान उनके सुन्दर मुखका

वसानो भद्रपसनं कृष्णः कान्ततरौऽभवत् ॥ २० ॥ स वद्धांग-
दनिर्व्यूहश्चित्रया वनमालया । शोभमानो हि गोविंदः शोभया-
गास तद्ब्रजम् ॥ २१ ॥ नाम दामोदरेत्येवं गोपकन्यास्तदाब्रुवन्- ।
विचित्रं चरितं घोषे दृष्ट्वा तत्तस्य भास्वतः ॥ २२ ॥ तास्तं पयो-
धरोत्तुङ्गैरुगिः समपीडयन् । भ्रामिताक्षैश्च वदनेर्निरीक्षते
वरांगनाः २३ ता चार्यमाणाः पुतिभिर्भ्रातृभिर्मातृभिस्तथा- । कृष्णं
गोपांगना रात्रौ मृगयन्ते रतिपियाः ॥ २४ ॥ तास्तु पंक्तिकृताः
सर्वा रमयन्ति मनोरमम् । गायन्त्यः कृष्णचरितं द्वन्द्वशो गोप-
नयन चला कर पान करने लगी ॥ १६ ॥ कल्याणप्रद गीले
हरतालकी समान पीले रेशमी वस्त्र को धारण करने वाले
श्रीकृष्ण उस समय और भी मनोहर प्रतीत होने लगे २०
विचित्र वन मालाके वने हुए वंशे हुए वाजूवन्दसे शोभा पाते
हुए श्रीकृष्ण उस ब्रजको सुशोभित करने लगे ॥ २१ ॥ गोप-
कन्याओंने ग्राममें श्रीकृष्णका विचित्र चरित्र देखा था अत एव
वह कान्तिमान् श्रीकृष्णको दामोदर नामसे पुकारने लगीं २२
वे अपने पयोधरोंसे श्रीकृष्णको पीडित करने लगीं और वे
सुन्दर अंगों वाली स्त्रियों नेत्र घुमा कर श्रीकृष्णको देखने
लगीं २३ पति भाई और माताएँ उनको रोकती थीं तब भी वे
रतिमिय गोपिये रात्रिमें श्रीकृष्णको हूँदती फिरती थीं २४ वे गोप
कन्याएँ पंक्तिवद्ध (मण्डल) बाँधकर मनोरम श्रीकृष्णके ताप
क्रीड़ा करने लगीं, वे गोपकन्याएँ द्वन्द्व होकर श्रीकृष्णके चरित्रका
गान करने लगीं और दोनों ओर श्रीकृष्ण थे (कहा है; कि-
“अंगनामंगनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरे चांगनाः ।
इत्यमाकल्पिते मण्डले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी-
नन्दनः” अर्थात् प्रत्येक स्त्रियोंके मध्यमें श्रीकृष्ण थे और प्रत्येक
माधवके बीचमें गोपिये थीं इस प्रकार मण्डलकी रचना होने पर

कृष्णकाः ॥२५॥ कृष्णलीलानुकारिण्यः कृष्णमण्डितेक्षणाः ।
 कृष्णस्य गतिगामिन्यस्तरुण्यस्ता वरांगनाः ॥२६॥ वनेषु ताल-
 इस्ताग्रैः कूजयन्त्यस्तथापराः । चेख्वे चरितं तस्य कृष्णस्य व्रज-
 योपितः ॥२७॥ तास्तस्य नृत्यं गीतं च विलासस्मितवीक्षितम् ।
 मुदितारचानुकुर्वन्त्यः क्रीडन्ति व्रजयोपितः ॥२८॥ भावनिस्पंद
 मधुरं गायन्त्यस्ता वरांगनाः । व्रजं गता सुखं चेख्दामोदरपरा-
 यणाः ॥ २९ ॥ करीपपांसुदिग्धांग्यस्ताः कृष्णमनुवत्रिरे । रम-

मध्यमें खड़े हुए श्रीकृष्ण वेणुको वजाने लगे श्रुतिमें भी कहा है,
 कि-“पद्यावस्ते पुरुषा वपुष्युर्ध्वा तस्यौ त्र्यविरैरिहाणा ऋतस्य
 सन्न विचरामि विद्वान् मदद् देवानामसुरत्वमेकम्” अर्थात् अभि-
 सरण करने वाली गोपियोंके प्राप्त करने योग्य कृष्णमूर्ति अनेक
 रूपधारिणी है, उसने बहुतसे शरीरोंको धारणकर लिया तथापि
 एक मध्यस्थित गोपी प्रत्येक गोपीके आगे और दोनों ओर
 वासुदेव हैं इस बातको दृष्टिसे देखकर यह विचारने लगी, कि-
 यह मूर्ति धर्मका निवासस्थानरूप है ऐसे देवतासे वियुक्त होना
 असुरत्वका एक मुख्य कारण है) २५ वे तरुण गोपियें वासुदेव
 की लीलाका अनुकरण करने लगीं और कृष्णकी ओर टकटकी
 बाँधकर देखने लगीं और कृष्णकी गतिसे चलने लगीं २६ वे
 व्रजकी स्त्रियें वनमें अंगुलियोंको तालकी समान उठा कर एक
 दूसरीको पुकार कर श्रीकृष्णके चरित्रका गान करने लगीं २७
 वे व्रजवांलाएँ श्रीकृष्णके नृत्य गीत विलास मुसकान और दृष्टि
 का प्रसन्नतासे अनुकरण कर क्रीड़ा करने लगीं ॥ २८ ॥ वे
 दामोदरमें परायण रहने वाली गोपियें अपने हृदयमेंके श्रीकृष्ण
 परके प्रेमातिशयभावको गाकर बाहर प्रकट करती हुई व्रजमें
 सुखपूर्वक विचरण करने लगीं ॥ २९ ॥ जैसे इधनिये मत्त गज-
 राजको वेर लें तैसेही अन्ने उपलोंके चूरोसे मलिन अर्गों वाली

पन्त्यो यथानागं संप्रमत्तं करेणवः ॥ ३० ॥ तमन्याभावविकचै-
 नैत्रः प्रहसिताननाः।पिवन्त्यतृप्तवनिताः कृष्णं कृष्णमृगेक्षणाः३१
 मुखमस्याञ्जसंकाशं तृपिता गोपकन्यकाः । रत्यन्तरगता रात्रौ
 पियन्ति रसलालसाः ॥ ३२ ॥ हाइति कुर्वतस्तस्य महृष्टास्ता-
 वरांगनाः । जगृहुर्निःसृतां वाणीं नाम्ना दामोदरेरिताम् ३३
 तासां ग्रथितसीमन्ता रतिं नीत्वाकुलीकृताः । चारु विस्रंसिरे
 केशाः कुचाग्रे गोपयोपिताम् ॥ ३४ ॥ एवं स कृष्णो गोपीनां
 चक्रवालैरलंकृतः । शारदीषु सचन्द्रासु निशासु सुसुदे सुखी ३५
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि इन्लीसक-
 क्रीडनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

वैशम्पायन उवाच । मदोपार्थे कदाचित्तु कृष्णे रतिपरायणो
 चासयन् समदो गोष्ठपरिष्टः प्रत्यदृश्यत ॥ १ ॥ निर्वाणांगार-

गोपियोंने श्रीकृष्णको घेर लिया ॥ ३० ॥ कृष्णमृगके समान
 नेत्रों वाली गोपियों मुखको प्रसन्न करके भावके कारण खिले
 हुए नेत्रोंसे श्रीकृष्णका पान करने लगीं परन्तु तृप्त नहीं हुई ३१
 दूसरी गोपियोंके साथ क्रोड़ामें लगी हुई गोपियों रसकी लालसा
 से तृपित होकर श्रीकृष्णके कमलकी समान मुखका पान करने
 लगीं ॥ ३२ ॥ जब दामोदर हा हा कह कर धोल उठते थे तब
 गोपियों परम प्रसन्न होकर उनकी वाणीको सुनती थीं ३३ उनके
 केश बँधे हुए थे, परन्तु क्रीड़ा करने के कारण खुल कर उनके
 स्तनों पर लटक गए थे ॥ ३४ ॥ इस प्रकारं गोपियोंके पण्डल
 से अलंकृत श्रीकृष्ण शरद ऋतुकी शुक्लपक्षकी रात्रियोंमें गोपियों
 के साथ आनन्द करके सुखी हुए थे ॥ ३५ ॥ वीसवां अध्याय
 समाप्त ॥ २० ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-एक समय आधी रात्रिके समय
 श्रीकृष्ण क्रीडा कर रहे थे, इसी समय मदमें भरा हुआ अरिष्ट

मेवाभस्तीक्ष्णमृद्धोऽर्कलोचनः । क्षुरतीक्ष्णाग्रचरणः कालः काल
इवापरः ॥ २ ॥ लेलिहानः सनिष्पेपं जिह्वयोष्ठौ पुनः पुनः ।
गर्वितात्रिद्धलांगूतः कठिनस्कन्धवन्धनः ॥३॥ ककुदोदग्रनिर्माणः
प्रमाणाद् दुरतिक्रमः॥ शकृन्मूत्रोपलिप्तांगो गत्रामुद्गवेगनो भृशम्
महाकटिः स्यूतामुखो दृढगानुर्महोदरः । त्रिपाणाचक्षिमतगतिल-
वता कण्ठचर्मणा ॥ ५ ॥ गत्रारोहेषु चपलस्तरुघाताकिता-
ननः । युद्धसज्जविपाणाग्रो द्विपद्भृत्पभसूदनः ॥ ६ ॥ अरिष्टो
नाम हि गत्रामरिष्टो दारुणाकृतिः । 'दैत्यां वृषभरूपेण गोष्ठान्
विपरिधावति ॥ ७ ॥ पातयानो गवां गर्भान् दृष्टो गच्छत्यनार्त-

नामका दानव गोष्ठमें आगया ॥ १ ॥ उसकी कान्ति बुझे हुए
कोयले और मेघकी समान काली थी सींग पैने थे नेत्र सूर्यकी
समान दमक रहे थे, खुर छुरेकी समान तीक्ष्ण थे, इस प्रकार
वह दूसरे कालकी समान दीख रहा था २ वह अपनी जिह्वा
से अपने ओठोंको चाटकर बार २ शब्दके साथ उनको वन्द कर
लेता था, और गर्वसे अपनी पूँछको उठा रहा था और उसका
कन्धा बड़ा कठिन था ॥ ३ ॥ वह अपने उदग्र (उठे हुए दृढ)
ककुदसे मार कर (वृत्त आदिसे तोड़ मार्ग) निर्माण कर लेता
था और गोचर तथा मूत्रसे उसका शरीर लिप रहा था इससे
गौँँ उससे परम त्रस्त रहती थी ४ उसकी कटि (कमर) बड़ी
चौड़ी थी और मुख लम्बा था जंघाएँ दृढ थी और पेट बड़ा था
जिस समय वह मुख चलाता था, उस समय उसके गलेमें लटकता
हुआ कण्ठका चर्म और विपाण भी चलते थे ॥५॥ वह गौँँ
दा चढनेके लिये चपल हो रहा था और उसका मुख वृत्तोंके
परकेतसे चिन्हित हो रहा था और उसके सींग युद्ध करनेके
सुखपूर्वक रहें थे, वह शत्रुओंके वृषभोंको नष्ट कर डालता था ६
राजको घेर ल्परिष्ट नामसे प्रसिद्ध दारुण आकार वाला अरिष्ट

वम् । जृम्भगाणश्च चपलो गृष्टीः संगनचार ह ॥ ८ ॥ शृङ्ग-
महरणो रौद्रः प्रहरन् गोषु दुर्मदः । गोष्ठेषु न रतिं लेभे विना-
युद्धेन गोष्टपः ॥ ९ ॥ कस्यचित्त्वथ कालस्य स वृषः केशवा-
ग्रतः । आजगाम बलोदग्रो वैवस्वतवशे स्थितः ॥ १० ॥ स
तत्र गास्तु प्रसभं बाधमानो मदोत्कटः । चकार निर्वृपं गोष्ठं
निर्वत्सशिशुपुङ्गवम् ॥ ११ ॥ एतस्मिन्नेव काले तु गावः कृष्ण
सगीपगाः । त्रासयोमास दुष्टात्मा वैवस्वतवशे स्थितः ॥ १२ ॥
सेन्द्राशनिरिवाम्भोदो नर्दमानो महासुरः । तालशब्देन तं कृष्णः
सिहनादेश्च मोहयन् ॥ १३ ॥ अभ्यधावत गोविन्दो दैत्यं वृषभ-
रूपिणम् । स कृष्णं गोष्टपो दृष्ट्वा हृष्टलांगूललोचनः ॥ १४ ॥

नामक वृषभरूपधारी दैत्य गोष्ठोंमें विचरण करने लगा ७ वह
अनुकालके न होने पर भी गर्वमें भर गौओं पर चढ उनके गर्भ
को गिराने लगा और वह चपल जँभाई लेकर सद्यः प्रसूता
गौओं पर चढने लगा ॥ ८ ॥ सींगोसे प्रहार करने वाला वह
दुर्मद रौद्र दैत्य गोष्ठोंमें गौओं पर प्रहार करने पर भी युद्धके
विना आनन्दित नहीं हुआ ॥ ९ ॥ कुछ समयके अनन्तर यम-
राजके वशमें पड़ा हुआ वह अपारबली वृषभ श्रीकृष्णके सामने
पहुँचा ॥ १० ॥ तहाँ उस मदोत्कट दैत्यने गौओंको बलपूर्वक
मारा तब गोष्ठमेंसे बैल बछड़े और बालक भाग गए ॥ ११ ॥
इसी समय कालके अधीन हुए उस दुष्टात्माने वासुदेवके
पास खड़ी हुई गौओंको खदेड़ना आरम्भ कर दिया ॥ १२ ॥
उस समय वह असुर वज्रका कड़ाका करते हुए मेघकी
समान गरजने लगा, उस समय वृषभरूपधारी दैत्यके
सामने श्रीकृष्ण ताली बजाकर और सिंहनाद कर उसको
मोहमें डालते हुए उसके ऊपर दौड़े श्रीकृष्णको देख कर उस
वृषभरूपधारी दैत्यके नेत्र और पूँछ प्रसन्न होगई ॥ १३ ॥ १४ ॥

रोपितस्नालशब्देन युद्धाकांक्षी ननर्द ह । तमापतन्तं दुर्दृचं दृष्ट्वा
 वृषभरूपिणम् । तस्मात् स्थानान्न व्यचलत् कृष्णो गिरिरिवा-
 चलः ॥ १५ ॥ स कुक्षी वृषभो दृष्टिं प्रणिधाय धृताननः ।
 कृष्णस्य निधनाकांक्षी तूर्णमभ्युत्पपात ह ॥ १६ ॥ तमापतन्तं
 ममुखे प्रतिजग्राह दुर्धरम् । कृष्णः कृष्णांजननिभो वृषं प्रतिवृषो-
 पमः ॥ १७ ॥ स संसक्तस्तु कृष्णो वै वृषेणैव महावृषः । मुमोच
 वक्रजं फेनं नस्तरचाथ स शब्दवत् ॥ १८ ॥ तावन्योन्यावरुद्धांगौ
 युद्धे कृष्णवृषावुभौ रजतुर्मेषसमये संसक्ताविव तो यदौ १९
 तस्य दर्पवत्वं इत्वा कृत्वा शृङ्गान्तरे पदम् । आपीडयदरिष्टस्य
 कण्ठं किन्नमिवाभ्रम् ॥ २० ॥ शृङ्गं चास्य पुनः सव्यमुत्पाटय

और वह तालियोंके शब्दसे रोपमें भर कर युद्धकी आकांक्षा
 से गजने लगा, उस वृषभरूप धारी दुर्दृचको आते देख कर
 श्रीकृष्ण उस स्थानसे न हटे और पर्वतकी समान अचल खड़े
 रहे ॥ १५ ॥ वह वृषभ अपने मुखको नीचेको कर श्रीकृष्णकी
 कुक्षी और दृष्टि जमा उनको मारनेकी इच्छासे फुर्तीसे झपटा
 जैसे सॉड सॉडको स्वीकार करता है इसी प्रकार काले अञ्जन
 की समान काले वासुदेव उस झपट कर आते हुएसे बैलकी
 समान अड़ गए १७वैलसे अड़ने वाले महावृषभकी समान उस
 दैत्यसे अड़े हुए वासुदेव बैलकी समान ही अपने मुखसे फेन
 गिराने लगे और नाकसे शब्द करने लगे ॥ १८ ॥ युद्धमें वासु-
 देव और वृषभ अर्द्धोंके परस्पर मिलनेसे वे वर्षाकालमें मिले हुए
 दो मेघोंकी समान प्रतीत होते थे ॥ १९ ॥ वासुदेवने उसके
 घमण्डको नष्ट कर उसके सींगोंके बीचमें पैर धर दिया और
 अरिष्टके कण्ठको भीगे हुए वस्त्रकी समान दवाने लगे तदन-
 नन्तर उसके दाहिने सींगको उखाड़ लिया और उस सींगसे ही
 उसके मुख पर महार करने लगे तब अधिक पिटनेसे वह मर

यमदयडवत् । तेनैव माहरद्वक्त्रे स ममार भृशं हतः ॥ २१ ॥
 स भिन्नशृङ्गो भगनास्थो भग्नस्कन्धश्च दानवः । पपात रुधिरो-
 द्दारी साम्बुधार इवाम्बुदः ॥ २२ ॥ गोविन्देन हतं दृष्ट्वा दृप्तं
 वृषभदानवम् । साधु साध्विति भूतानि तत्कर्मास्याभितुष्टुवुः २३
 स चोपेन्द्रो वृषं हत्वा कान्तचन्द्रे निशामुखे । अरविन्दाभनयनः
 पुनरेव ररास ह ॥ २४ ॥ तेषु गोवृत्तयः सर्वे कृष्णं कमललोच-
 नम् । उपासांचक्रिरे हृष्टाः सर्वे शक्रमिचामराः ॥ २५ ॥
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि वृषभासुरवधो
 नामैकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

गया ॥ २० ॥ २१ ॥ दूटे हुए सींगों वाला और कुचले हुए
 मुख वाला दूटे हुए कंधों वाला रक्तको बहाता हुआ वह दानव
 जलकी घास वाले मेघकी समान गिर पड़ा ॥ २२ ॥ घमण्डी
 वृषभ दानवको श्रीकृष्णके द्वारा मरा हुआ देख कर उनके कर्म
 से प्राणी साधु साधु कह कर श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे २३
 रमणीय रात्रिमें राक्षसको मारनेके अन्नतर, कमलकी समान नेत्रों
 की आभा वाले श्रीकृष्ण फिर रासक्रीड़ा करने लगे ॥ २४ ॥
 वे सब गोपभी देवताओंके इन्द्रकी उपासना करनेकी समान
 कमललोचन वासुदेवकी प्रसन्न होकर उपासना करने लगे (भ्रुति
 में कहा है, कि—“ मनेगस्मिन् ददृशे सोमो अन्तर्गोपानेय मावि-
 रस्था कृणोति । स तिगमशृंगं वृषभं युयुत्सन् द्रवस्तस्थौ बहुले
 वदो अन्तः” भीतर रह कर रक्षा करने वाला अन्तर्गामी अर्ध
 प्रपञ्चमें स्थावरमें सोमादिरूपसे दीखा, वह जंगमको प्रकट करने
 लगा वह तीखे सींगों वाले बैलसे युद्ध करना चाहने लगा, वह
 देखनेसे उसको भस्म कर सकता था, परन्तु उसने लीला करनेके
 लिये उससे द्रोह किया अर्थात् उसको मार डाला) ॥ २५ ॥
 इवकीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ २१ ॥

गौशम्पायन उवाच । कृष्णं ब्रजगतं श्रुत्वा वर्धमानमिवा-
 नलम् । उद्वेगमगमत् कंसः शंकरानस्ततो भयम् ॥१॥ पूतनायां
 हतायां च कालिये च पराजिते । धेनुके प्रलयं नीते प्रलम्बे च
 निपातिते ॥ २ ॥ धृते गोवर्धने शैले विफले शक्रशासने । गोपु
 त्रातासु च तथा स्पृहणीयेन कर्मणा ॥ ३ ॥ ककुब्जिनि हतेऽरिष्टे
 गोपेषु मुदितेषु च । दृश्यमाने विनाशे च संनिष्ठे महाभये ४
 कर्षणे वृत्तयोश्चैव शकृतस्य तथैव च । अचिन्त्यं कर्म तच्छ्रुत्वा
 वर्धमानेषु शत्रुषु ॥ ५ ॥ प्राप्तारिष्टमिवात्मानं मेने स मथुरेश्वरः ।
 विसंज्ञेन्द्रियभूतात्मा गतासुपतिगो वभौ ॥६॥ ततो ज्ञातीन् सप्ता-
 नाय्य पितरं चोग्रशासनः । निशि स्तिमितमूकायां मथुरायां जना-
 पिपः ॥ ७ ॥ वसुदेवं च देवाभं कंकं चाहूय यादवम् । सत्यकं

वैशंपायनजीने कहा, कि-ब्रजमें रहने वाले वासुदेवको अग्नि
 की समान बढ़ते हुए देख कर उनकी ओरसे शंकित हो कंस
 उद्विग्न होने लगा ॥१॥ पूतनाके मारे जाने पर, कालियके पराजित
 होने पर धेनुकके मरने पर और प्रलम्बके गिराने पर गोवर्धन
 पर्वतके उठानेसे और इन्द्रके शासनके निष्फल जानेसे और
 गौओंकी रक्षा करना रूप प्रशंसनीय कर्मसे, ककुब्जीके मारे जानेसे
 गोपोंके आनन्दित होने पर कंसको अपना भी महाभयदायक
 विनाश सामने दीखने लगा २-४ वृत्तोंके खेंचने और गाड़ी तोड़ने
 के अचिन्त्य कर्मको सुन कर (कंसने समझा, कि-) शत्रु बढ़
 रहे हैं ५ अतः मथुरेश्वरने समझा, कि- मेरी मृत्यु आ गई है,
 अत एव उसकी इन्द्रियों और जीव व्यङ्गकुल होगए और वह शत्रुकी
 सपान होगया ६ तदनन्तर उस कठोरतारो शासन करने वाले
 राजाने निःशब्द होनेसे गुपी रात्रिमें अपनी जाति वालोंको तथा
 अपने पिताको बुलाया ७ तदनन्तर उसने देवनाकी सपान आभा
 वाले वसुदेव और यादव कंस सत्यक दाहक और कंसका छोटा

दारुकं चैव कंकावरजमेव च ॥ ८ ॥ भोजं चै तरणं चैव
 विकट्टं च महाबलम् । भयशंखं च धर्मज्ञं पृथुं विपृथुश्रियम् ॥ ९ ॥
 वभ्रुं दानपतिं चैव कृतवर्माणमेव च । भूरितेजसमत्तोभ्यं भूरि-
 श्रवसमेव च ॥ १० ॥ एतान् स यादवान् सर्वानाभाष्य ऋणुतेति
 च । उग्रसेनसुतो राजा प्रोवाच मथुरेश्वरः ॥ ११ ॥ भवन्तः
 सर्वकार्यज्ञा वेदेषु परिनिष्ठिताः । न्यायवृत्तान्तकुशलास्त्रिवर्गस्य
 प्रवर्तकाः ॥ १२ ॥ कर्तव्यानां च कर्तारो लोकस्य विबुधोपमाः ।
 तस्थिवांसो महावृत्ते निष्कम्पा इव पर्वताः १३ अदम्भवृत्तयः सर्वे
 सर्वे गुरुकुलोपिताः । राजमन्त्रधराः सर्वे सर्वे धनुषि पारगाः १४
 यशःप्रदीपा लोकानां वेदार्थानां विवक्षयः । आश्रमाणां निसर्गज्ञा
 वर्णानां क्रमपासगाः ॥ १५ ॥ प्रवक्तारः सुनियतां नेतारो नय-

भाई भोज वैतरण महाबल-विकट्ट धर्मज्ञ-भयशंख अति-
 शोभायमान-विपृथु दानपति वभ्रु कृतवर्ण अत्तोभ्य भूरितेजा
 और भूरिश्रवाको बुला कर उग्रसेनके पुत्र मथुराके स्वामी
 राजा कंसने उन सबको संबोधित कर उनको कहा, कि-
 सुनो ८-११ आप सब कार्योंको जानने वाले हैं और वेदों
 का अभ्यास करनेमें लगे रहते हैं, न्यायवृत्तान्तमें कुशल है, धर्म
 अर्थ और कामके प्रवर्तक हैं १२ और कर्तव्यकार्योंकरने वाले
 हैं और संसारके देवताकी समान हैं और यड़े २ कार्योंमें निष्कम्प
 पर्वतोंकी समान दृढ़ रहते हैं १३ और सब दम्भरहित हैं धर्मकर
 सेवन करते हैं और सबने गुरुकुलमें वास किया है और आप
 सब राजाको सलाह देसकते हैं और सब धनुषदममें भी पारंगत
 हैं १४ आपका यश लोकोंमें फैला हुआ है और आप वेदोंके
 अर्थोंको कहने वाले हैं आप आश्रमोंके और वर्णोंके स्वाभाविक
 क्रमोंको जानते हैं और (वेदके) क्रममें पारंगत हैं १५ आप
 शोभन विविधोंको बताया करते हैं और आप नीति बताने वालों

दर्शनाम् । भेत्तारः परराष्ट्राणां त्रातारः शरणाधिनाम् ॥१६॥
 एवमक्षतचारित्रैः श्रीमद्भिरुदितोदितैः । औरप्यनुगृहीता स्याद्भ-
 वद्भिः किं पुनर्मही ॥१७॥ ऋषीणामिव वो वृत्तं मभावो मरुता-
 मिव । रुद्राणामिव वः क्रोधो दीप्तिरङ्गिरसामिव ॥१८॥ व्यावर्त-
 गानं समुद्भवद्भिः ख्यातकीर्तिभिः । धृतं यदुकुलं वीरैर्भूतलं
 पर्वतरिव ॥ १९ ॥ एवं भवत्सु युक्तेषु मम चित्तानुवर्तिषु । वर्ध-
 मानो गमानर्थो भवद्भिः किमुपेक्षितः ॥ २० ॥ एष कृष्ण इति
 ख्यातो नन्दगोपसुतो व्रजे । वर्धमान इवांभोधिमूलं नः परि-
 कृन्तति ॥ २१ ॥ अनमात्यस्य शून्यस्य चारांधस्य ममैव तु ।
 कारणान्नन्दगोपस्य स सुतो गोपितो गृहे ॥ २२ ॥ उपेक्षित इव

के नेता हैं, आप शत्रुओंके राष्ट्रोंमें भेद डलवा देते हैं और शरणागतोंकी रक्षा करते रहते हैं इस प्रकार बात पढ़ने पर आप श्रीमानोंके अक्षत चरित्रोंका वर्णन हुआ करता है अत एव आप से स्वर्ग भी अनुगृहीत होजायगा, पृथ्वीकी तो बात ही क्या १७ आप चरित्रमें ऋषियोंकी समान है और आपका प्रभाव मरुतों की समान है और आपका क्रोध रुद्रोंके क्रोधकी समान है और आपकी कांति अंगिराओंकी समान है १८ आपसे बड़ी कीर्ति वाले वाले व्यक्तियोंने भ्रष्ट होते हुए यदुवंशके, जैसे पर्वत पृथ्वीको धारण कर रहे हैं तैसे धारण कर रक्खा है १९ आप ऐसे हैं और मेरे चित्तके अनुकूल वर्तव्य करते हैं, तब भी आप मेरे ऊपर वदते हुए अनर्थकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं २० व्रजमें जो वामुदेव नामसे प्रसिद्ध नन्दगोपका पुत्र है वह समुद्रकी समान वद कर हमारी जड़को काट रहा है २१ मेरे मंत्री नहींके बराबर हो रहे हैं और मैं हृदयशून्य हूँ और मैं दूतरूपी नेत्रोंसे रहित हूँ. इसी कारण नन्दगोपके घरमें (वसुदेवका) पुत्र रक्षा पारहा है २२ जैसे लापरवाहीसे देखी हुई व्याधि बढ़ती है और पर्वकालमें जैसे

व्याधिः पूर्यमाण इवाम्बुदः । नदन् मेघ इवोष्णाति स दुरात्मा
 विवर्धते ॥ २३ ॥ तस्य नाहं गतिं जाने न योगं न पराक्रमम् ।
 नन्दगोपस्य भवने जातस्याद्भुतकर्मणः ॥ २४ ॥ किं तद्भूतं समुद्र-
 भूतं देवापत्यं न विद्महे । अतिदेवैरमानुष्यैः कर्मभिः सोऽनु-
 भीयते ॥ २५ ॥ पूतना शकुनी वाच्ये शिशुनोत्तानशायिना । स्तन-
 पानेषुना पीता प्राणैः सह दुरासदा ॥ २६ ॥ यमुनाया हृदे
 नागः कालियो दमितस्तथा । रसातलचरो नीतः क्षणेनादर्शनं
 वृदात् ॥ २७ ॥ नन्दगोपसुतो योगं कृत्वा स पुनरुत्थितः । धेनु-
 कस्तालशिखरात् पातितो जीवितं विना ॥ २८ ॥ मलम्बं यं
 सृष्टे देवा न शोऽहरतिवर्तितुम् । बालेन मुष्टिनैकेन स इतः प्राकृतो
 यथा ॥ २९ ॥ वासवस्योत्सवं भङ्क्त्वा वर्षं वासवरोधनम् । निर्जित्य

समुद्र बढ़ता है और जैसे ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें मेघ गरज
 कर बढ़ता है, इसी प्रकार वह दुरात्मा बढ़ रहा है, २३ नन्दगोपके
 घरमें उत्पन्न हुए उस अद्भुत कर्म करने वालेके तत्त्वको मैं नहीं
 समझ सका और न मेरी समझमें उसके वशीकरणका कुछ उपाय
 समझमें आता है, ॥ २४ ॥ वह कौनसा प्राणी है इसको हम
 नहीं समझ सकते, यह अपने अतिदैविक कर्मोंसे देवसन्तान
 प्रतीत होता है, २५ उसने बालकपनमें चिच होकर शयनकरते २
 स्तन पान करनेकी इच्छा कर दुरासद शकुनि पूतनाको उसके
 प्राणों सहित पीलिया है ॥ २६ ॥ और उसने यमुनाके सरो-
 वरमें कालिय नागका भी दमन किया था और उसको रसातल
 में भेजदिया था और वह तालाबमेंसे क्षणभरमें ही अदृश्य
 होगया था ॥ २७ ॥ वह नन्दगोपका पुत्र (नागपाशबन्धनको
 काटने रूप) योगको करके फिर उठ बैठा था और उसने ताल
 के शिखरसे निर्जीव धेनुको गिरा दिया था ॥ २८ ॥ जिस
 मलम्बको देवता भी नहीं दवा सकते थे उसको उस बालकने

गोमृद्धार्याभ धृतो गोवर्ज्जनो गिरिः ॥ ३० ॥ हतस्तरिष्टो बल-
वान्निःशुं गश्च कृतो व्रजे । अत्रालो बाल्यमास्थाय रगते शिशु-
लीलाया ॥ ३१ ॥ प्रपन्थः कर्मणामेवं तस्य गोव्रजवासिनः ।
सन्निवृष्टं भयं चैव नेशिनो मम च ध्रुवम् ॥ ३२ ॥ भूतपूर्वश्च
मे मृत्युः स नूनं पूर्वदैहिकः । युद्धाकांक्षी च स यथा तिष्ठतीह
ममाग्रतः ॥ ३३ ॥ क्व च गोपत्वगशुभं मानुष्यं मृत्युदुर्जलम् ।
क्व च देवप्रभावेन कीडितव्यं व्रजे मम ॥ ३४ ॥ अहो नीचेन
वपुषा ह्यादधित्वाऽऽत्मनो वपुः । कोऽप्येव रमते देवः शमशागस्थ
इवानलः ॥ ३५ ॥ श्रूयते हि पुरा विष्णुः सुराणां कारणांतरे ।

माकृत वस्तुकी समान मुट्ठी मार कर ही सगाप्त कर दिया २६
उसने इन्द्रके उत्सवको बन्द कर दिया था और जब इन्द्रने कोप
करके वर्षाकी तो उसने घर बनानेके लिये गोवर्धन गिरिको
उठ कर उसके प्रयत्नको निष्फल कर दिया था ॥ ३० ॥ उसने
व्रजमें अरिष्टके सींग उखाड कर उसको मार डाला, वह बालक
नहीं है, परन्तु वह बालक बन कर शिशुलीला दिखा रहा है ३१
उस गौओंमें और व्रजमें रहने वालेकी ऐसी घटनाओंको देख-
कर मुझे मतीत होता है, कि-केशीके ऊपर और मेरे ऊपर भी
भय आने वाला ही है ३२ उसने पहिले जन्ममें भी मुझे मार
डाला था, अब भी वह उसी प्रकार मेरे साथ युद्ध करनेकी ही
सदा आकांक्षा करता रहता है ॥ ३३ ॥ वहाँ तो अशुभ गोप-
पन और मृत्यु होनेसे दुर्जल मनुष्यपन और कहीं उसका
देवताओंकी समान प्रभावसे मेरे व्रजमें क्रीडा करना (इन
बातोंका विचार तो करो) ॥ ३४ ॥ अहो ! यह तो कोई देवता
अपनेको नीच शरीरमें छिपा कर शमशानमें स्थित अग्निकी
समान क्रीडा कर रहा ह ॥ ३५ ॥ भर्त्स यह बात सुनी है, कि-
पहिले देवताओंके किसी कामसे विष्णुने वामनका रूप धारण

वाग्नेन तु रूपेण जहार पृथिवीमिमाम् ॥३६॥ कृत्वा केसरिणो
 रूपं विष्णुना प्रभविष्णुना । हतो हिरण्यकशिपुर्दानवानां पिता-
 महः ॥ ३७ ॥ अचिन्त्यरूपमास्थाय रवेतशैलस्य मूर्धनि । भवेन
 च्याविता दैत्याः पुरा तत् त्रिपुरं ध्वता ॥ ३८ ॥ चालितो गुरु-
 पुत्रेण भार्गवोऽगिरसेन वै । प्रविश्य दार्दुरीं मायागनावृष्टिं चकार
 ह ॥३९॥ अनन्तः शाश्वतो देवः सहस्रशिरसोऽज्ययः । चाराहं

कर इस पृथ्वीको जीत लिया था ॥३६॥ और इस प्रभाववान्
 विष्णुने ही सिंहका रूप धारण कर दानवोंके पितामह हिरण्य-
 कशिपुको मार डाला था ॥ ३७ ॥ भव (रूपधारी विष्णु) ने
 श्वेत पर्वतकी चोटी पर अचिन्त्य रूपको धारण कर त्रिपुरकां
 नाश कर दैत्योंको गिरा दिया था ॥३८॥ अगिरस गोत्री गुरु-
 पुत्रने भार्गवको चलायमान कर दिया था और दार्दुरी मायाका
 आश्रय लेकर अनावृष्टि कर दी थी (अर्थात् गुरु वृषस्पति-के
 पुत्र कचने भार्गव शुक्रको चलायमान कर दिया था अर्थात्
 उनका नियम था, कि मैं मृतसंजीविनी विद्या किसीको नहीं दूंगा
 इस नियमसे उनके भ्रष्ट कर दिया था, उसने कैसे भ्रष्ट किया
 था इसका उत्तर यह है, कि-जैसे मंडक मर कर फिर जीवित हो
 जाता है, इसीप्रकार कच भी वारम्बार राक्षसोंसे मारा जाकर
 एक बार गुरुके पेटमें घुस गया था तब गुरु (शुक्राचार्य) से
 विद्या सीख उनके पेटको फाड़ कर फिर निकल आया था और
 उसने मरे हुए गुरुको फिर जीवित कर दिया था, इस प्रकार
 दार्दुरी मायासे उसने सञ्जीविनी विद्या पाई थी और दानवोंकी
 की हुई कचहत्याको निमित्त मान कर मेघने दानवोंमें वरसना
 छोड़ दिया था, इस प्रकार दानवोंका विनाश रुद्रके द्वारा त्रिपुर
 की समान कचके द्वारा इस विष्णुने ही किया था) ॥ ३९ ॥
 इस अनन्त शाश्वत और अनन्त शिर वाले अच्युत देवने बराह

रूपमास्थाय प्रोज्जहारार्णवान्महीम् ॥ ४० ॥ अमृते निर्मिते पूर्वं
 विष्णुः स्त्रीरूपमास्थितः । सुराणामसुराणां च युद्धं चक्रे सुदारु-
 णम् ॥ ४१ ॥ अमृतार्थे पुरा चापि देवदैत्यसमागमे । दधार
 मन्दरं विष्णुरक्षुपार इति श्रुतिः ॥ ४२ ॥ वपुर्वामनमास्थाय
 नन्दनीयं पुरा बलेः । त्रिभिः क्रमैस्तु त्रींलोकान् जहार त्रिदिवा-
 लयम् ॥ ४३ ॥ चतुर्धा तेजसो भागं कृत्वा दाशरथेर्गृहे । स एव
 रामसंज्ञो वै रावणं व्यनशत्तदा ॥ ४४ ॥ एवमेव निकृत्या वै
 तत्तद्रूपमुपागतः । साधयित्वाऽऽत्मनः कार्यं सुराणामर्थसिद्धयेऽथ
 तदेव नूनं विष्णुर्वा शक्रो वा मरुतां पतिः । मत्साधनेच्छया प्राप्तो
 नारदो मां प्रयुक्तवान् ॥ ४५ ॥ अत्र मे शंकरे बुद्धिर्वसुदेवं प्रति
 ध्रुवा । अस्य बुद्धिविशेषेण वयं कातरतां गताः ॥ ४७ ॥ अहं

का रूप धारण कर समुद्रमेंसे पृथ्वीको निकाल लिया था ४०
 पहिले अमृत निकलने पर इसने स्त्रीका रूप धारण कर देवता
 और असुरोंमें दारुण युद्ध छिड़वा दिया था ॥ ४१ ॥ और
 जब अमृतके लिये देवता और दैत्य इकट्ठे हुए थे तब इस
 विष्णुने कच्छप बन कर मन्दराचलको धारण कर लिया था
 ऐसी प्रसिद्धि है ४२ पहिले इसने नन्दनीय वामन शरीर धारण
 कर बलिके यहाँ तीन चरणोंसे तीन लोकोंको नाप कर स्वर्गको
 लेलिया था ॥ ४३ ॥ और इसने ही दशरथके घरमें अपने तेज
 के चार भागकर राम (अंश) से रावणको, नष्ट कर डाला
 था ॥ ४४ ॥ इस प्रकार यह ब्रह्मसे प्रत्येक रूपको धारण कर
 देवताओंके कार्यकी सिद्धिके लिये अपने कामको साधा करता
 है ॥ ४५ ॥ इस लिये यह वास्तवमें विष्णु वा मरुतपति इन्द्र मुझे
 साधनेकी इच्छासे यहाँ आगया है। यही बात मुझसे नारजीने
 भी कही थी ॥ ४६ ॥ इस विषयमें घेरी बुद्धि वसुदेवको सन्देह
 से देखती है, इसकी बुद्धिसे हम तो कातर हो गए हैं ॥ ४७ ॥ मैं

हि खट्वांगवने नारदेन समागतः । द्वितीयं स हि मां विप्रः पुन-
रेवात्रवीद्वचः ॥ ४८ ॥ यस्तवया हि कृतो यत्नः कंस गर्भकृते
गहान् । वसुदेवेन ते रात्रौ तत्कर्म विकलीकृतम् ॥ ४९ ॥ दारिका
या त्वया रात्रौ शिलायां कंस पातिता । तां यशोदासुतां विद्धि
कृष्णं च वसुदेवनम् ॥ ५० ॥ रात्रौ व्यावर्तितावेतौ गर्भौ तत्र
वधाय वै । वसुदेवेन सन्ध्याय मित्ररूपेण शत्रुणा ॥ ५१ ॥ सा
तु कन्या यशोदाया विन्ध्ये पर्वतसतमे । हत्वा शुम्भनिशुम्भौ द्वौ
दानवीं नगचारिणी ॥ ५२ ॥ कृताभिषेका वरदा भूतसंघनिषे-
विता । अर्च्यते दस्युभिर्घोरैर्महाबलिपशुप्रिया ॥ ५३ ॥ सुरापि-
शितपूर्णाभ्यां कुम्भाभ्यामुपशोभिता । मयूरांगदचित्रैश्च वर्धनारै-
र्निभूषिता ॥ ५४ ॥ हृष्टकुक्कुटसंनादं वनं वायसनादितम् । मृग-

खट्वांग वनमें नारदजीसे दूसरी बार मिला था तब उन ब्राह्मणने
सुभसे कहा था, कि-॥ ४८ ॥ हे कंस ! तूने गर्भ गण्ड करनेका
जो बड़ा भारी यत्न किया था उस तेरे कर्मको वसुदेवने रात्रिमें
बिफल कर दिया ॥ ४९ ॥ हे कंस ! तूने रातके समय जिस
बालिकाको शिला पर पटक था उसको तू यशोदाकी पुत्री जान
और कृष्णको वसुदेवसे उत्पन्न हुआ समझ ॥ ५० ॥ तेरे मित्र-
रूप शत्रु वसुदेवने तेरा वध करनेके लिये रात्रिके समय इन बालकों
को बदल दिया था ॥ ५१ ॥ जो यशोदाकी कन्या थी वह पर्वतों
में उत्तम-विंध्याचल पर पर्वतचारी शुंभ निशुंभ नाम वाले दो
दैत्योंको मार कर निवास कर रही है ॥ ५२ ॥ तहाँ उसका
अभिषेक हुआ है और उस वरदान देने वालीको भूतोंके झुण्ड
वेरे रहते हैं और महाबलि और उस पशुओंको प्रिय समझने
बालिका दस्यु पूजन करते रहते हैं ॥ ५३ ॥ वह सुरा और मांससे
परिपूर्ण कुंभोंसे शोभा पाती रहती है और वह मोरके बाजूबन्द
और सीरछलोंसे सुशोभित रहती है ॥ ५४ ॥ उस देवीके वनमें

संवैश्व संपूर्णाप्रविरुद्धैश्च पत्निभिः ॥५५॥ सिंहव्याघ्रवराहाणां
नादेन प्रतिनादितमृत्तगन्भीरनिषिडं कान्तारैः सर्वतो वृत्तम् ५६
दिव्यभृङ्गारुचमरैरादर्शरूपशोभितम् । देवतूर्यनिनादैश्च शतशः
प्रतिनादितम् ॥ ५७ ॥ स्थानं तस्याः नगे विन्ध्ये निर्मितं स्वेन
तेजसा । गिपूणा त्रासजननी नित्यं तत्र मनोरमे ॥५८॥ वसने
परमगीता देवतैरपि पूजिता । सस्त्वयं नन्दगोपस्य कृष्ण इत्यु-
च्यते सुतः ॥ ५९ ॥ अत्र मे नारदः प्राह सुमहत् कर्मकारणम् ।
द्वितीयो वसुदेवाद्द्वै वासुदेवो भविष्यति ॥६०॥ स हि ते सहजो
मृत्युर्नान्वशश्च भविष्यति । स एव वासुदेवो वै वसुदेवसुतो

दर्पमें भरे हुए मृग (कुकड़ू कू) का शब्द करते हैं और कौए
(काँय २) करते रहते हैं और तहाँ मृगोंकी टोलियें भर रही हैं
और-तहाँ पत्नी आपसमें निरोध न रख कर रहते हैं ॥ ५५ ॥
वह वन सिंह व्याघ्र और वराहोंके नादसे गुंजारता रहता है
और वह पत्नोंके कारण गंभीर और भयंकर दीखता है और
उसके चारों ओर वन हैं ॥ ५६ ॥ तहाँपर सुवर्णके दिव्य गडुए
और चमर रखे रहते हैं और वह स्थान दर्पणोंसे सुशोभित है
और वह देवताओंके सँकड़ों तूर्योंके निनादसे प्रतिध्वनित
होता रहता है ॥ ५७ ॥ उस देवीने तहाँ पर्वतोंमें उत्तम विन्ध्य-
पर्वत पर अपने तेजसे ही अपना स्थान बना लिया है वह शत्रुओं
को त्रास देने वाली उम मनोरम स्थानमें देवताओंसे पूजा पा
परम प्रसन्न हो तहाँ निवास कर रही है और जो यह नन्दगोप
का पुत्र कृष्ण कहनाता है ॥ ५८॥५९॥ इसको नारदजीने मुझे
(वृत्तनावध आदि) वड़े २ कायोंका कारण (करने वाला)
बतलाया है, यह वसुदेवसे (बलरामकी अपेक्षा) दूसरा वासुदेव
होगा (अर्थात् पहिले वसुदेवपुत्र बलराम हैं और दूसरे वसुदेवके
पुत्र कृष्ण हैं) ॥ ६० ॥ पत्नी तेरी मृत्यु शंके और वह वासुदेव

बली । वान्धवो धर्मतो मह्यं हृदयेनान्तको रिपुः ॥ ६१ ॥ यथा
 हि वायसो मूर्ध्नि पद्भ्यां यस्यावतिष्ठति । नेत्रे तुदति तस्यैव
 वक्रोणामिपगृद्धिना ॥ ६२ ॥ वसुदेवस्तथैवायं सपुत्रज्ञातिर्वाधवः ॥
 क्षिनति मम मृतानि भुंक्ते च मम पार्श्वतः ॥ ६३ ॥ भ्रूणहत्यापि
 सन्तार्या गोवधः स्त्रीवधोऽपि बान कृतघ्नस्य लोकोऽस्ति वाध-
 वस्य विशेषतः ॥ ६४ ॥ पतितानुगतं मार्गं निषेवत्यचिरेण सः ।
 यः कृतघ्नोनुबन्धेन प्रीतिं वहति दारुणाम् ॥ ६५ ॥ नरकाध्यु-
 पितः पन्था गन्तव्यस्तेन दारुणः । अपापे पापहृदयो यः पाप-
 मनुतिष्ठति ॥ ६६ ॥ अहं वा स्वजनः श्लाघ्यः स वा श्लाघ्यतरः
 सुतः । निषमैर्गुणवृत्तेन त्वया वान्धवकाम्यया ॥ ६७ ॥ इतिना

तेरा स्वाभाविक वांधव भी होगा, यह वही वसुदेवका पुत्र वासु-
 देव (कृष्ण) है, यह धर्मसे तो मेरा वान्धव है परन्तु हृदयसे
 यह मेरा कालरूप शत्रु है जैसे कौआ जिसके मस्तक पर बैठता
 है उसके ही नेत्रोंको अपनी मांस चाहने वाली चोंचसे कुरेदने
 लगता है ॥ ६२ ॥ इसी प्रकार यह वसुदेव और इसके जाति
 वाले, वांधव और पुत्र भी मेरे ही समीप रह कर खाते हैं और
 मेरी ही जड़को काटने रहते हैं ६३ भ्रूणहत्या गोवध और स्त्री-
 वधका भी प्रायश्चित्त है, परन्तु जो बन्धु होकर भी कृतघ्नता करे
 उसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है ६४ कृतघ्न अपने कार्यके
 अतुरोधसे दारुण फल देने वाली (अपनी) भीतिके कार्यको करता
 है तो, उसको शीघ्र ही पतितोंके मार्गमें चलनेका फल मिल जाता
 है ६५ जो दूषित चित्त वाला पुरुष निरबल पुरुषसे बल करता
 है, उसको नरककेसे दारुण मार्गमें डल देना चाहिये ६६ अरे ! तू
 नियम गुण और चरित्रकी कामना कर अधार्मिकोंकी ओर देख
 कर किसको मित्र बनाना चाहता है तू मुझ अपने संबंधीको श्लाघ्य
 समझना है अथवा तू अपने पुत्रको अच्छा समझता है (चता

कलहे घोरे बधमृच्छन्ति वीरुधः । युद्धव्युपरमे ते तु सहाश्नन्ति
 महावने ॥ ६८ ॥ ग्रन्थवानामपि तथा भेदकाले समुत्थिते ।
 वधयते योन्तरप्रोष्ठुः स्वजनो यदि वेतरः ॥ ६९ ॥ कालस्त्वं
 हि विनाशाय मया पुष्टो विज्ञानता । वसुदेव कुलस्यास्य यद्विरो-
 धयसे भृशम् ॥ ७० ॥ अगर्षी वैरशीलश्च सदा पापमतिः शठः ।
 स्थाने यदुकुलं मूढ शोचनीयं त्वया कृतम् ॥ ७१ ॥ वसुदेव वृथा
 वृद्ध यन्मया त्वं पुरस्कृतः । श्वेतेन शिरसा वृद्धो नैव वर्षशती
 भवेत् ॥ ७२ ॥ यस्य बुद्धिः परिणता स वै वृद्धतरो वृणाभ् ।
 न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ॥ ७३ ॥ त्वं च कर्तुं -

तुझे अपना पुत्र मिय है, वा मैं मिय हूँ) ६७ जैसे हाथियोंके घोर
 युद्धमें लताएँ ही कुचल जाती हैं और युद्ध निवटने पर वे दोनों
 हाथी महावनमें साथ २ भोजन करने लगते हैं (इसी प्रकार मेरे
 और कृष्णके कलहमें वसुदेव आदि ही नष्ट होजावेंगे और हम
 दोनों अन्नत रहेंगे इसी प्रकार बांधवोंमें भेदका समय उपस्थित
 होने पर जो द्विद्र हूँडता रहता है उसको मार डालना चाहिये,
 फिर च हे वह अपना हो वा दूसरा हो ६९ हे वसुदेव ! तुम इस
 कुलका बड़ा विरोध करते हो (हा !) मैंने जान घूँस कर अपना
 नाश करनेके लिये तुम्ह कालको अपने यहाँ पुष्ट किया है ७०
 तू अमर्षी है, वैर करना तेरा स्वभाव है और तेरी बुद्धि सदा
 पाप करनेमें लगी रहती है और तू द्विष कर अपराध करने वाला
 (शठ) है हे मूढ़ ! (इसी लिये) तूने यदुकुलको शोचनीय
 स्थितिमें ला डाला है (यह तो तुम्हसे आशा ही थी) ७१ हे
 वृद्ध वसुदेव ! मैंने तेरा सत्कार किया अतः मेरा जन्म व्यर्थ है,
 कोई श्वेत केश और सौ वर्षका होनेसे ही वृद्ध नहीं होजाता
 है ७२ जिस की बुद्धि पक जाती है वही मनुष्योंमें वृद्ध माना
 जाता है, मस्तकमें भुर्रियों पड़नेसे ही कोई वृद्ध नहीं होजाता ७३

शीलरश्च बुद्ध्या च न बहुभुतः । केवलं वयसा वृद्धो यथा
 शरदतोपदः ॥ ७४ ॥ किं च त्वं साधु जानीषे वसुदेव वृथापते।
 हते कंसे मम सुनो मधुरां पालयिष्यति ॥ ७५ ॥ द्विन्नाशस्त्वं
 घृथा वृद्धो भिष्या त्वेनं विचारितम् । जिज्ञीविषुर्न सोप्यस्ति यो
 वी तिष्ठेन्ममाग्रतः ॥ ७६ ॥ महतुर्कामो विश्वस्ते यस्त्वं दुष्टेन
 घेतसा । तत्ते प्रतिकरिष्येहं पुत्रयोस्तव पश्यतः ॥ ७७ ॥ न मे
 वृद्धरथः कश्चिद्विजस्त्रीवध एव च । कृतपूर्वः करिष्ये वा विशो-
 पेण तु बान्धवे ॥ ७८ ॥ इह त्वं जातसंवृद्धो मम पित्रा विवर्धितः।
 पितृष्वसुरश्च मे भर्ता यदूनां मयमो गुरुः ॥ ७९ ॥ कुले महति
 विख्यातः मयिते चक्रवर्तिनाम् । सुर्वर्थं पूजितः सद्भिर्महद्भिर्धर्म-
 तू कर्कश है, और तेरी बुद्धिसे मतीत होता है, कि तूने बहुतसे शास्त्र
 नहीं सुने हैं, तू तो शरद ऋतुके बादलों भी समान अवस्थामें व्यर्थ
 ही बढ़ गया है ७४हे वृथापति वसुदेव ! क्या तू यह समझता है,
 कि कंसके मारे जाने पर मेरा पुत्र मथुराका पालन करेगा ॥ ७५ ॥
 अरे ! अब तेरी आशा नष्ट होगई, तू तो वृथा ही बृद्ध होगया है
 तेरा ऐस विचारना व्यर्थ है, जो मेरा सामना करता है, वह
 जोबित रहना नहीं चाहता ७६ तू विश्वासी पुरुष पर दूषित
 चित्तसे महार करना चाहता है उसका तमाशा तो मैं तुझे तेरे
 पुत्रोंके सामने ही दिखाऊँगा ७७ मैंने कभी बृद्ध पुरुषका वा
 स्त्रीका वध नहीं करा है और न मैं कभी बृद्ध वा स्त्रीका वध
 करूँगा फिर बान्धवका वध तो मैं क्या करूँगा ! ७८ तू यहाँ ही
 उत्पन्न हुआ है और हमारे यहाँ ही बुड़ा होगया है और
 तू मेरे पिताकी बहिनका भर्ता है अतः इम तुझे यदुआँमें सबसे
 बड़ा मानते हैं ७९ तू चक्रवर्तियोंके प्रसिद्ध कुलमें उत्पन्न हुआ
 है, बड़े २ धर्मात्मा पुरुषोंने इसी महत्वके कारण तेरा पूजन किया
 था (यस्य मूर्धनि दृश्येत विना द्वयेण भूपतेः । पद्यानुकरिणी

बुद्धिभिः ॥ ८० ॥ किं करिष्यामहे सर्वे सत्सु वक्तव्यतां गताः।
 यदूनां यूयमुह्यस्य यस्य ते वृत्तपीडशम् ॥ ८१ ॥ मद्वयो वा
 जयो वऽथ वसुदेवस्य दुर्नयैः । सत्सु यास्यन्ति पुरुषा यदूनाम-
 वगुण्डिताः ॥ ८२ ॥ त्वया हि मद्वयोपायं तर्कमाणेन वै मृधे ।
 अविश्वास्यं कृतं कर्म वाच्यारव यद्वचः कृताः ॥ ८३ ॥ अशाम्यं
 घैरमुत्पन्नं मम कृष्णस्य चोपयोः । शान्तिमेकतरे शान्तिं गते
 यास्यन्ति यादवाः ॥ ८४ ॥ गच्छ दानपते क्षिप्रं ताविहानयितुं
 व्रजात् । नन्दगोपं च गोपांश्च करदानमम श्लासनात् ॥ ८५ ॥
 चाच्यरव नन्दगोपो वै कामद्वाय वापिक्रम् । शीघ्रमागच्छ नगरं
 गोपैः सह समन्वितः ॥ ८६ ॥ कृष्णसंरुर्षणौ चैव वसुदेवसुता-

च्छाया तमाहुश्चक्रवर्तिनम्' जिस भूतिके मस्तक पर छत्र न
 लगाने पर भी पद्मकी सी आया दीखती है, उसको चक्रवर्ती कहते
 हैं, ८०तु यदुओंके कुल में प्रधान है तवभी तेरी ऐसी करतूत है
 इससे सज्जनोंमें हमारे ऊपर आक्षेप होने लगंगा, हाँ हम क्या
 करें ८१ इस वसुदेवकी दुर्नीतिसे मेरा वध हों, चाहेँ जय हो परन्तु
 इसकी करतूतसे यदुवंशियोंको सज्जनोंमें अपना मुख ढकगा पड़ेगा
 अर्थात् एकके कपटसे सबके सब यदुवंशी कपटी कहलावेंगे ८२तूने
 युद्धमें मेरे वधका उपाय सोच कर अविश्वासी पुरुषकासा काम
 किया है और यादवोंको निन्द्य कर दिया है ८३मेरा और कृष्णका
 शान्त ग होने वाला घैर होगया है इन दोनोंमेंसे एकके शान्त
 होने पर ही यदुवंशियोंको शांति मिल सकेगी ॥ ८४ ॥ अतः हे
 दानपते ! अक्रूर ! अब तुम उन दोनोंको, नन्दगोपको और गोपों
 को जो करद हैं उनको, मेरे हुक्मसे ब्रजसे बुलानेके लिये शीघ्रता
 से प्रस्थान करो ॥ ८५ ॥ तुम नन्दगोपसे कहना, कि तुम और
 गो। सालाना खिरानको ले कर शीघ्र ही हमारे नगरको
 आओ ॥ ८६ ॥ कंस और कंसके पुरोहित और कंसके भृत्य

युधौ । द्रष्टुमिच्छति वै कंसः सभृत्यः सपुरोहितः ॥ ८७ ॥ एतां
 युद्धविद्वौ रंगे कालनिर्माणपोधिनौ । दृष्टौ च कृद्भिर्नौ चैव
 शृणोमि न्यायतोद्यतौ ॥ ८८ ॥ अस्माकरूपि मच्छौ द्वौ सज्जौ
 युद्धकृतोत्सवौ । ताभ्यां सह नियोत्स्येते तौ युद्धकुशलानुभौ ८९
 द्रष्टव्यौ च गयाऽनश्यं वालौ तावमरोपमौ । पितृष्वसुः सुतौ मुख्यौ
 व्रजवासौ बनेचरौ ॥ ९० ॥ वक्तव्यं च व्रजे तस्मिन् समीपे व्रज-
 वासिनाम् । राजा धनुर्मखं नाम कारयिष्यति वौ सुखी ॥ ९१ ॥
 सन्निकृष्टे बने ते तु तिष्ठन्तु यथासुखम् । जनस्यामन्त्रितस्यार्थं
 यथा स्यात् सर्वमन्वयम् ॥ ९२ ॥ पयसः सर्पिपश्चैव दध्नो दध्यु-
 त्तरस्य च । यथाकामपदानाय भोज्याधिश्रपणाय च ॥ ९३ ॥
 अक्रूर मच्छं शीघ्रं त्वं तावनय गणाज्ञया । संकर्षणं च कृष्णं च

वसुदेवके दोनों पुत्र कृष्ण और संकर्षणको भी देखना चाहते
 हैं ॥ ८७ ॥ मैंने सुना है, कि-यह दोनों युद्धवेत्ता है और रंग-
 स्थल (अखाड़े) में सगयानुसार युद्ध करनेमें कुशल है, दृढ़ हैं
 चतुर हैं और बड़ा उद्यम करने वाले हैं ॥ ८८ ॥ हमारे यहाँ भी
 (चाखूर और मुष्टिक नाम वाले) दो मन्त्र तयार-हुए हैं. उनका
 युद्ध (कुशती) देखनेके लिये खरसव मनाया जायगा उन दोनों
 युद्धकुशलोंकी उनके साथ कुशती करवाई जावेगी ॥ ८९ ॥ मैं
 उन व्रजवासी बनेचर अपनी पिताकी बहिनके पुत्र देवताकी समान
 बालकोंको अवश्य देखना चाहता हूँ ॥ ९० ॥ और व्रजमें तुम
 व्रजवासी गोपोंसे कहना, कि-परम सुखी राजा धनुर्मख करेंगे ९१
 इस लिये वे पासके बनेमें आकर सुखपूर्वक रहें, जिससे आमन्त्रित
 व्यक्तियोंको भली प्रकार, आराम पहुँच सके ॥ ९२ ॥ वे यहाँ
 आकर उनके इच्छानुसार घी दूध, दही मट्ठा और दूधपाक
 बनानेके लिये दूर देनेको यहाँ आजायें ॥ ९३ ॥ अत एव, हे
 अक्रूर! अब तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही उनके लिये लाओ कृष्ण

द्रष्टुं कौतूहलं हि मे ॥६४॥ तयोरागमने प्रीतिः परमा मत्कृता
 भवेत् । दृष्ट्वा तु तौ महावीर्यौ तद्विधास्यामि यद्धितम् ॥ ६५ ॥
 शासनं यदि वा श्रुत्वा मन तौ परिभाषितम् । नागच्छेतां यथा
 कालं निग्राह्यावपि तौ मम ॥ ६६ ॥ सांग्त्वमेव तु बालेषु प्रधानं
 प्रथमो नयः । मधुरेणैव तौ मन्दौ स्वयमेवानयाशु वै ६७ अक्रूर
 कुरु मे प्रीतिमेतां परमदुर्लभाम् । यदि वा नोपजप्तोऽसि वसु-
 देवेन सुव्रत ॥ ॥६८॥ तथा कर्तव्यमेतद्धि यथा तातागमिष्यतः ।
 एवमाक्षिप्यमाणोऽपि वसुदेवो वसूपमः । सागराकारमात्मानं
 निष्कंपमधारयत् ॥६९॥ वाक्शन्यैस्ताड्यमानस्तु कंसेनादीर्घ-
 दर्शिना । क्षमा मनसि सन्धाय नोत्तरं प्रत्यभाषत ॥ १०० ॥
 ये तु तं ददृशुस्तत्र क्षिप्यमाणमनेकथा । धिग्धिगित्यसकृत्ते वै

और संकर्षणको देखनेके लिये मुझे बड़ा कुतूहल होरहा है ६४
 यदि तू उनको बुला लावेगा तो तू मेरा बड़ा प्रिय कार्य करेगा, मैं
 उन दोनों बलशालियोंको देख कर जिसमें अपना हित समझूँगा
 उस कार्यको करलूँगा ६५ यदि वे मेरे भाषण और मेरे शासन
 को सुन कर भी न आवें तो तुम समयानुसार उनको बाँध कर
 ले आना ॥ ६६ ॥ पहिले बालकोंको समझाना चाहिये, यही
 उत्तम नीति है इसलिये तू उन्हें पहिले मधुरतासे ही लिवा कर
 लानेका शीघ्रतासे उद्योग करना ॥ ६७ ॥ हे सुव्रत अक्रूर! यदि
 वसुदेवने तुमको तोड़ न लिपा हो तो तुम शीघ्रतासे मेरे इस परम-
 प्रीतिके कामको करो ॥ ६८ ॥ हे तात ! तुम ऐसा ही काम
 करना जिससे वह यहाँ आ ही जाँय, वसुओंकी समान वसुदेव
 इस प्रकार आच्छेद करने पर अपनी आत्माको समुद्रकी समान
 निष्कंप किये रहे ॥ ६९ ॥ अदूरदर्शी कंसके वाणीरूप काँटोंसे
 बिंधने पर भी वसुदेवजीने अपने मनमें क्षमा धारण कर कुब्ज भी
 उबार नहीं दिया ॥ १०० ॥ उधर जिन्होंने वसुदेव पर अनेक

शनेरुचुरवाङ्मुखाः ॥ १ ॥ अक्रूरस्तु महातेजा जानन् दिव्येन
चक्षुषा । जल दृष्ट्वेव तृपितः प्रेषितः प्रीतिमानभूत् ॥२॥ तस्मि-
न्नेव मुहूर्ते तु मथुरायाः स निर्यया । प्रीतिमान् पुण्डरीकान्तं द्रष्टुं
दानपतिः स्वयम् ॥ १०३ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि अक्रूरप्रस्थानं
नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

वैशम्पायन उवाच । क्षिप्रं यदुदृशं दृष्ट्वा सर्वे ते यदुपुङ्गवाः ।
निपीडय श्रवणान् हस्तैर्मनिरं तं गतायुषम् ॥ १ ॥ अन्धकोऽनु-
द्विगमना धैर्यादधिकृतं वचः । गोवाच वदतां श्रेष्ठः सपाजे कंस-
गोजसा ॥ २ ॥ अरलाद्यो महतां पुत्रे तवायं वाक्परिश्रमः ।
अयुक्तो गर्हितः सन्निर्वान्धवेषु विशोपतः ॥ ३ ॥ अयादवो यदि
मवान् शृणु तावन्नदुच्यते । न हि तां यादवं वीर वलात् कुर्वति

मकारके आक्षेप पड़ते देखे थे वे भी नीचेकी मुख करके वारंवार
थिक् २ करने लगे ॥ १०१ ॥ महातेजस्वी बुद्धिमान् अक्रूर अपने
दिव्यनेत्रके कारण सब बानोंको जानते थे अत एव वह तहाँ जाने
की आज्ञा पाकर तृपित (ध्यासे) को जैसे जल मिला जाता है,
तैसे प्रसन्न हुए ॥ १०२ ॥ और वह दानपति उसी (मध्य-
रात्रिके समय) क्षण पुण्डरीकान्तको देखनेकी इच्छासे प्रसन्न
हो मथुरासे चल पड़े ॥ १०३ ॥ बाईसवों अध्याय समाप्त २२

वैशम्पायनजीने कहा, कि-यदुदृष्टको मौन देख कर सब यदु-
पुङ्गवोंने अपने कानों पर हाथ धर लिया और वमुदेवको मरा
समझने लगे १ परंतु (कंक उपनाम वाले) अंधकका मन न
घबड़ाया और वह वक्राओंमें श्रेष्ठ कंक गंभीरतासे कंससे कहने
लगा ॥ २ ॥ बड़े आदमीके पुत्रसे इस प्रकार बातचीत
करना अनुचित है और बांधवोंसे तो ऐसा व्यवहार करना
और भी गर्हित तथा अनुचित है ॥ ३ ॥ मैं यादव न हूँ यह

यादवाः ॥ ४ ॥ अश्लाघ्या वृष्णयः पुत्र येषां त्वमनुशासिता ।
 इक्ष्वाकुवंशजो राजा विनिवृत्तः स्ववंशकृत् ॥ ५ ॥ भोजो वा
 यादवो वासि कंसा वासि यथा तथा । सहजं ते शिरस्नात जटी
 मुण्डोऽपि वा भव ॥ ६ ॥ उग्रसेनस्त्वयं शोच्यो योऽस्माकं कुल-
 पासनः । दुर्गातीयेन येन त्वगीदृशो जनितः सुतः ॥ ८ ॥ न
 चात्मनो गुणांस्ताव मवदन्ति मनीषिणः । परेणोक्ता गुणा गौण्यं
 यान्ति वेदार्थसम्पिताः ॥ ८ ॥ पृथिव्यां यदुवंशोऽयं निन्दनीयो
 महीक्षिताम् । बालः कुलान्तकृन्मूढो येषां त्वमनुशासिता ॥९॥
 एतैरसाधुभिर्वाक्यैस्त्वया साञ्चिति भाषितैः । न चाप्यामादितं
 कार्यमात्मा च विवृतः कृतः ॥ १० ॥ गुरोरनवलितस्य मान्यस्य

सगभू कर यदि तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो ये यादव तुमको
 बलपूर्वक तो यादव नहीं बनाना चाहते ४ हे पुत्र ! जिनका तू
 शासन करता है, वे वृष्णि प्रशंसाके योग्य नहीं हैं, पहिले इक्ष्वाकु
 वंशमें (असमंजस) राजा अपने वंशके काटने वाला हुआ
 (ऐसा ही तू भी मनीषी होता है) ५ अतः हे ताव ! तू भोज हो
 यादव हो वा कंस हो तू जो कुब्ज हो, तू अपनी स्वाभाविक
 ग्वापड़ीके कारण राजाओंके शिर मुँडा वा उनकी जटा बढ़वा ६
 हम तो अपने कुनकलंक उग्रसेनका शोक करते हैं, कि-जिस
 दुर्गातिने तुम्हमा पुत्र उत्पन्न किया है ७ हे ताव ! विद्वान् पुरुष
 अपने गुणोंके नहीं कहते हैं किन्तु उनके दूसरोंके कहे हुए वेद
 के अनुकूल अर्थ वाले गुण सफल माने जाते हैं ८ जिनका
 शासन करने वाला तुम्हमा कुलके काटने वाला बालक शासक
 है, वे यदुवंशी तो उस पृथ्वीमें राजाओंमें निन्दनीय ही माने
 जायेंगे ९ तूने जो अपने दुषि भावोंके मञ्जनोजित भाषामें
 प्रकट किया, इरासे मेरा प्रयाजन तो कुब्ज सिद्ध न होगा हाँ तूने
 अपने स्वरूपको प्रकट कर दिया १० अरे ! महापुरुषोंके मान्य

महतामपि । क्षेपणं कः शुभं मन्ये द्विनस्येव वधे कृते ॥ ११ ॥
 मान्यारचैवाभिगम्गाथ वृद्धास्तात यथाऽनयः । क्रोधो हि तेषां
 मदहेष्वांकानंतर्गतानपि ॥ १२ ॥ बुधेन तात दानेन नित्यमभ्यु-
 च्छिन्नात्मना । धर्मस्य गतिरन्वेष्या मत्स्यस्य गतिरप्स्विव १३
 केवलं त्वं तु दर्पेण वृद्धानग्निसमानिह । वाचा तुदसि मर्मघ्न्या
 त्वपन्नोक्ता यथाहुतिः ॥ १४ ॥ वसुदेवं च पुत्रार्थे यदिमं परि-
 गर्हामि । तत्र मिथ्याप्रलापं ते निन्दामि कृपण वचः ॥ १५ ॥
 दारुणो च पिता पुत्रे नैव दारुणतां व्रजेत् । पुत्रार्थे यापदः कष्टाः
 पितरः प्राप्नुवन्ति हि ॥ १६ ॥ आदितो वसुदेवेन यदि पुत्रः
 शिशुस्तदा । मन्यसे यद्यकर्तव्यं तद्यच्च पितरं स्वकम् ॥ १७ ॥
 गर्हता वसुदेवं च यदुवंशं च निन्दता । त्वया यादवपुत्राणां वैरजं

और निर्दोष अपने बड़ेके ऊपर आक्षेप करनेको शुभ कौन समझ
 सकता है, वह तो ब्रह्महत्याकी समान है ११ हे तात ! वृद्धोंको
 तो मरणम करना चाहिये और उनका सत्कार करना चाहिये,
 उनका क्रोध तो योगबलसे पाये हुए लोकोंको भी भस्म कर
 डालता है १२ हे तात ! अपनी आत्माको उन्नत करना चाहने
 वाला बुद्धिमान् मनुष्य धर्मकी गतिको जलमें मत्स्यकी गतिवी
 समान हूँडे १३ परन्तु तू तो दर्पमें भर कर बिना मंत्र पढ़ कर
 होमी हुई आहुतिकी समान की मर्मको काटने वाली वाणियोंसे
 अग्निकी समान प्रभाव वाले वृद्धोंको ही कष्ट दे रहा है १४ और
 जो तू वसुदेवकी पुत्रके लिये निन्दा करता है, सो यह तेरा
 मिथ्या प्रलाप है, मैं तेरे इस कृपण वचनकी निन्दा करता हूँ १५
 क्यों कि- पुत्रके दारुण होने पर भी पिता दारुण नहीं होता है
 और पिता तो पुत्रके लिये बड़ी २ कष्टपद आपत्तियोंको भी
 सहा करते हैं ॥ १६ ॥ वसुदेवने अपने बालक पुत्रको जिया दिया
 था, इसको तू अकर्तव्य समझता हो तो तू अपने पितासे

विपमर्जितम् ॥ १८ ॥ अकर्तव्यं यदि कृतं वसुदेवेन पुत्रजम् ।
किमर्थमुग्रसेनेन शिशुस्त्वं न निपातितः ॥ १९ ॥ पुन्नाम्नो नर-
कात् पुत्रो यस्मात्त्राता पितंस्तदा । तस्माद्ब्रुवन्ति पुत्रेति पुत्रं
धर्मविदो जनाः ॥ २० ॥ जात्यैर्हि यादवः कृष्णः स च संकर्षणो
युवा । त्वं चापि विधृतस्ताभ्यां जातशैरेण चेतसा ॥ २१ ॥ उद्द-
धृतानीह सर्वेषां यदूनां हृदयानि वै । वसुदेवे त्वयाक्षिपे वासु-
देवे च कोपिते ॥ २२ ॥ कृष्णे च भवतो द्वेष्ये वसुदेवविगर्हणात् ।
शंसन्ति चेगानि भयं निमित्तान्यशुभानि ते ॥ २३ ॥ सर्पाणां
दर्शनं तीव्रं स्वप्नानां च निशान्तये । पुर्या वैधव्यशंसीति कारणा-
रनुगीगद्वे ॥ २४ ॥ एष घोरो ग्रहः स्वातिमुज्जितखन खे गभस्तिभिः

ब्रूयते ॥ १७ ॥ तूने वसुदेव और यादवोंकी निन्दा कर यदु-
वंशियोंसे वैररूपी विष पीलिया है ॥ १८ ॥ यदि वसुदेवने
अपने पुत्रकी रक्षा कर अकर्तव्य किया है, तो उग्रसेनने तुझे
बालकपनमें क्यों न मार डाला या ॥ १९ ॥ पुत्र पितरोंको पुं
नामक नरकसे बचाया करता है, इसी लिये धर्मको जानने वाले
पुरुष पुत्रको पुत्र कहते हैं ॥ २० ॥ तूने तो श्रीकृष्ण और
संकर्षणके उत्पन्न होते ही वैर बाँध लिया है फिर वे भी तुझसे
अपने चित्तमें वैरभाव रखने लगे हैं (अर्थात् तू ही बालकत्वासा
मध्य अपराधी है) ॥ २१ ॥ तूने वसुदेव पर आक्षेप किया है और वासुदेव
कोपमें भर रहे हैं, इससे सब यदुवंशियोंके हृदय जोरसे काँप रहे
हैं ॥ २२ ॥ वसुदेवकी निन्दा करनेसे श्रीकृष्णको तुमने अपना शत्रु बना
लिया है और इस समय अशुभ चिन्ह भी तेरे ऊपर भय पड़नेकी
सूचना दे रहे हैं ॥ २३ ॥ प्रातःकालके समय स्वप्नोंमें सर्प दीखते हैं
इन सब निमित्तोंसे इमें अनुमान होता है, ये सब नगरीके वैधव्य
को सूचित कर रहे हैं ॥ २४ ॥ यह घोर ग्रह (राहु) आकाशमें
अपनी क्रियाओंसे स्वानिकों को बंध रहा है और घोर दर्शन अंगारक

वक्रमंगारकरचक्रे चित्रार्था घोरदर्शनः ॥ २५ ॥ बुधेन पश्चिमा
संध्या व्याप्ता घोरैष तेजसा । वैश्वानरपथे शुक्रो ह्यतिचारं
चचार ह ॥ २६ ॥ केतुना धूमकेतोस्तु नक्षत्राणि त्रयोदश ।
भरण्यादीनि भिन्नानि नानुयान्ति निशाकरम् ॥ २७ ॥ प्राक्
सन्ध्या परिघग्रस्ता भागिर्वाधति भास्करम् । प्रतिलोमं च यत्पेव
व्याहरन्तो मृगद्विजाः ॥ २८ ॥ शिवा श्मशानान्निष्क्रम्य निःश्वा-
सांगारवर्षिणी । उभे संध्ये पुरीं घोरा पर्येति बहु चाशती २९

भी चित्रामें वक्र होकर पड़ा है (सर्वतोभद्रचक्रमें तुम्हारा
(कंसका) नक्षत्र मृगशिरा है उसमें दशवाँ चित्रा है उसका
नक्षत्र घोर ग्रह राहु क्रूर हो रहा है और कुम्भी भी वक्र होकर तहाँ
ही आगया है इन दोनों कर्मके नक्षत्रको व्याप्त कर जन्मनक्षत्रको
बेध रक्खा है अतः तेरा जीवनके लिये किया हुआ सब पत्न
निष्फल जावेगा और तेरा देह नष्ट हो जावेगा) २५ संध्याके समय
बुध अपने घोर तेजसे पश्चिम दिशामें उदय होते हैं (अर्थात्
पश्चिम दिशामें बुधका उदय होना भी राज्यभंगकी सूचना है)
और सूर्यके मार्गमें शुक्रने भी अतिचार किया है (अर्थात् बुध
सूर्य और शुक्रका बहुत दूर रहना बड़े भारी भयको देता है) २६
धूमकेतुके केतु (पूँछ) ने (भरणी आदि कंसके जन्म और
कर्मके) तेरह नक्षत्रोंको बेध रक्खा है (अत एव राहुके चित्रास्थ
होने पर) बाकी तेरह नक्षत्र (जीवपत्नमें होने पर भी उत्तरके
तेरह नक्षत्र मृत्युपत्नमें पड़े है अतः एव तहाँ पर स्थित) चंद्रमा
भी उन नक्षत्रोंके साथ होनेसे उत्तम फल नहीं कर सकता २७
संध्या होनेसे पहिले पण्य (रविमण्डल) निकल आता है और
वह सूर्यको घेर लेता है और मृग तथा पत्नी प्रतिलोम होकर
बोलते हुए निकल जाते हैं ॥ २८ ॥ और निःश्वासरूपी अंगारों
को बरसाने वाली गीदड़ी भी दोनों संध्याओंमें श्मशानमेंसे

उल्का निर्घातनादेन पपात धरणीनलोचलत्यपर्वणि मही गिरीणां
 शिखराणि च ॥ ३० ॥ अस्तः स्वर्भानुना सूर्यो दिवा नक्तम-
 जायत । धूमोत्पानैर्दिशो व्याप्ताः शुष्काशनिसमाहताः ॥ ३१ ॥
 प्रस्रवन्ति पना रक्तं साशनिस्तनगित्नवः । चलिता देवताः
 स्थानात्यजन्ति विहगा नगान् ॥ ३२ ॥ यानि राजविनाशाय
 दैवज्ञाः कथयन्ति इ । तानि सर्वाणि पश्यामो निमित्तान्यशुभानि
 वै ॥ ३३ ॥ त्वं चापि स्वजनद्वेषी राजधर्मपराङ्मुखः । अनि-
 मित्तागतक्रोधः सन्निकृष्टभयो ह्यसि ॥ ३४ ॥ यस्त्वं देवोपगं
 वृद्धं वसुदेवं वमूषणम् । गोहात् क्षिपसि दुर्बुद्धे कुतस्ते शान्ति-
 रात्ननः ॥ ३५ ॥ त्वद्गतो यो हि नः स्नेहस्तं त्यजामोऽद्य वै

निकल कर पुरीके चारों ओर रोती फिरती है ॥ २६ ॥ इस
 समय उल्काभी घातका शब्द करती हुई पृथ्वीमें गिरी है और
 अकस्मात् ही पृथ्वी और पर्वतोंके शिखर कांपने लगते हैं ३०
 राहु सूर्यके अस्त लेता है इस लिये दिनमें भी रात्रि होजाती है,
 मूखी अशनियोंसे व्याप्त दिशाएँ पुञ्जल तारोंसे व्याप्त होरही हैं ३१
 मेघ अशनि और वज्र तथा रक्त वरसाने लगते हैं देवता अपने
 स्थानसे चलित होजाते हैं और पक्षियोंने पर्वतोंको त्याग दिया
 है ॥ ३२ ॥ इस प्रकार दैवज्ञ मनुष्य राजाके विनाशके जिन
 चिन्होंको कहते हैं उन सब अशुभ निमित्तोंको हम देख रहे हैं ३३
 और तू भी अपने आदमियोंसे द्वेष कर रहा है और राजधर्मसे
 विमुक्त होरहा है और तुझे किसी निमित्तके न होने पर भी
 क्रोध आगया है, अतः तेरे ऊपर शीघ्र ही भय पड़ने वाला है ३४
 हे दुर्बुद्धे ! तू वसुदेवी समान और देवताकी समान वृद्ध वसुदेवजी
 पर आक्षेप कर रहा है तो हे मूढ़ ! तुझे शांति कैसे मिल
 सकती है ॥ ३५ ॥ हमारत तेरे ऊपर जो स्नेह था उसको हम
 आज त्यागते हैं तू अपने वंशका अहित करने वाला है अतः हम

वयम् । अहितं स्वस्य वंशस्य न त्वां वयमुपास्महे । ३६ ॥ स
 हि दानपतिर्धन्यो गो द्रक्ष्यति वने गतम् । पुण्डरीकविशालान्तं
 कृष्णमक्लिष्टकारिणम् ॥ ३७ ॥ द्विन्नमूलो ह्ययं वशो यदूनां
 त्वत्कृते कृतः।कृष्णो ज्ञातीन् समानाद्य स सन्धानं करिष्यति ३८
 ज्ञान्तमेव तवानेन वसुदेवेन धीमता । कालः सम्यक् परिज्ञातो
 ब्रूहि त्वं यत्रदिच्छसि ॥३९॥ मह्यं तु रोचते कंस वसुदेवसहाय-
 चान् । गच्छ कृष्णस्य निलयं सन्धिस्तेन च रोचताम् ॥ ४० ॥
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि अन्धक-

वचनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

शैशम्पायन उवाच । अन्धकस्य वचः श्रुत्वा कंसः संरक्त-
 लोचनः । न किञ्चिद्वचोक्रोधादिवेश स्वं निकेतनम् ॥ १ ॥ ते
 च सर्वे यथावेश्य यादवाः श्रुतविस्तराः । जग्मुर्विगतसंरुन्धा-

अव तेरी उपासना नहीं कर सकते ॥ ३६ ॥ दानपति अक्रूर
 धन्य है, क्यों कि वह कमलसी समान विशाल नेत्रों वाले और
 सरलासे कर्मको कर सकने वाले श्रीकृष्णको वनमें देखेंगे ३७
 यह यदुओंका वंश तेरे कारणसे जड़ कटासा होगया है अब
 श्रीकृष्ण जति वालोंको बुलाकर इसका फिर रोपण करेंगे ३८
 इन बुद्धिमान् वसुदेवने तो तुझे ज्ञान ही कर दिया, तेरा काल
 आगया है, यह तो भली भौति विदित होगया, अतः अब तेरी
 गो इच्छा हो सो कहता रह ॥ ३९ ॥ हे कंस मुझे तो यह
 अच्छा लगता है तू वसुदेवजीको सहायता करनेके लिये साथमें
 रखकर श्रीकृष्णके घरको जा और उनसे सन्धि करले ॥४०॥
 तेईसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥

शैशम्पायनजीने कहा, कि—अन्धकके वचनोंको सुन कर वह
 कंसके नेत्र रक्त होगए और क्रोध आजानेसे कुछ न यह कर
 वह घरमें चला गया ॥१॥ तदनन्तर वे सब विरह्य नापणको

कंसं चै कृतशंसिनः ॥ २ ॥ अक्रूभोऽपि यथाज्ञप्तः कृष्णदर्शन-
लालसः । जगाम रथमुख्येन मनसा तुल्यगामिना ॥ ३ ॥ कृष्ण-
स्मापि निमित्तानि शुभान्यंगगतानि च । पितृतुल्येन शंसन्ति
वान्धवेन सगागमम् ॥ ४ ॥ प्रागेव च नरेन्द्रेण माथुरेणोग्रसेनिना ।
केशिनः प्रेषितो दूतो वधायां पेन्द्रकारणात् ॥ ५ ॥ स च
दूतवचः श्रुत्वा केशी क्लेशकरो नृणाम् । वृन्दावनगतो गोपान्
घाथते स्म दुरासदः ॥ ६ ॥ मानुषं मांसमशनानः क्रद्धो दुष्ट-
पराक्रमः । दुर्दान्तो वाजिदैत्योसावकरोत् कदनं महत् ॥ ७ ॥
निघ्नन् गा वै सगोपाला गर्वा पिशितभोजनः । दुर्पदः काम-
चारी च स केशी निरवग्रहः ॥ ८ ॥ तदरण्यं रणशानाभं नृणां
मांसास्थिभित्तम् । यत्रास्ते स हि दुष्टात्मा केशी तुरगदानवः ६

सुनने वाले पादव भी "कंस अपना काम कर चुका" यह कहते
हुए निःसंकल्प होकर अपने २ घरोंको चले गए ॥ २ ॥ इधर
अक्रूर भी आज्ञा पानेपर श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसासे मनकी
समान चलने वाले श्रेष्ठ रथमें बैठ कर चले जाते थे ॥ ३ ॥
उधर श्रीकृष्णके अर्द्धोंमें भी पिताकी समान किसी वान्धवसे
मिलनेके शुभ शकून होने लगे ॥ ४ ॥ (अक्रूरको भेजनेसे)
पहिले ही उग्रसेनके पुत्र मथुराके राजाने कृष्णका वध करनेके
लिये अपने दूतको केशीके पास भेजा था ५ दूतके वचनको
सुनकर वृन्दावनमें रहने वाला मनुष्यसंहारक दुरासद केशी
गोपोंको पीडा देने लगा ६ ॥ वह दूषित पराक्रम करने वाला
दुर्दान्त अश्वरूपधारी दैत्य मनुष्योंके मांसको खारकर गोपोंका
संहार करने लगा ॥ ७ ॥ वह इच्छानुसार फिरने वाला उच्छृङ्खल
और दुर्पद केशी दैत्य गौओं और गोपोंको मार कर गौओंके
मांसको खाने लगा ॥ ८ ॥ वह अश्वरूपधारी दुष्टात्मा केशी
दानव जहाँ रहना था वह वन रणशानकी समान मनुष्योंके

सुरैर्दारयते भूमिं वेगेनारुजते द्रुमान् । हेपितैः स्पर्धते वायुं प्लुनै-
 ल्लेचयते नभः ॥ १० ॥ अतिप्रवृद्धो मत्तश्च दृष्टोऽश्वो वनगोचरः ॥
 आकम्पितसटो रौद्रः कंसस्य चरितानुगः ॥ ११ ॥ ईरिणं तद्वनं
 सर्वं तेनीवं घोरकर्मणा । कृतं तुरगदैत्येन सर्वान् गोपान् जिघां-
 सता ॥ १२ ॥ तेन दुष्टप्रचारेण दूषितं तद्वनं महत् । न वृधि-
 गोंधनीर्वापि सेव्यते वनवृत्तिभिः ॥ १३ ॥ निःसम्पातः कृतः पन्था-
 स्तेन तद्विषयाश्रयः । गदाच्चलितवृत्तेन नृमांसान्यश्नता भृशम् १४
 नृशब्दानुसरः क्रुद्धः स कदाचिद्वनागमे । जगाम घोपसंवासं
 चोदितः कालधर्मणा ॥ १५ ॥ तं दृष्ट्वा दुद्रुवुर्गोपाः स्वियश्च
 शिशुभिः सह । क्रन्दमाना जगन्नाथं कृष्णं नाथमुपाश्रिताः १६

मांस और हड्डियोंसे घिरा रहता था वह सुमोंसे भूमिकों विदीर्ण
 करता रहता था और अपने वेगसे वृत्तोंको गिरा देता था
 और हींस कर वायुसे स्पर्धा करता था और उबल कर आकाशमें
 कूद जाता था १० वह वनमें फिरने वाला दुष्ट अश्व बहुत बढ़
 गया था और उसके अगल हिलते रहते थे ऐसा भयंकर केशी
 कंसका अनुचर था ॥ ११ ॥ उस घोर कर्म करने वाले दैत्यने
 सब गोपोंको मार २ कर उस सारे वृन्दावनको उजाड़ कर दिया
 था ॥ १२ ॥ उस दूषित आचरण करने वालेने उस बड़े
 भारी वनको दूषित कर रक्खा था, इस लिये गोधनसे
 आजीविका चलाने वाले मनुष्य और साधारण माणी भी उस
 वनका सेवन नहीं करते थे ॥ १३ ॥ मदसे चलित वृत्ति वाले
 उस दानवने अधिकतर मनुष्योंके ही मांसको खाकर उस वनके
 आस पास जाने वाला मार्ग बन्द कर रक्खा था ॥ १४ ॥ वह
 मनुष्योंका शब्द सुन कर ही दौड़ आता था एक समय क्रोधमें
 भरा हुआ वह दानव मृत्युवश घोपकी ओर गया ॥ १५ ॥ उस
 को देख कर गोप और गोपस्त्रियें अपने २ बालकोंको लेकर

तासां रुदितशब्देन गोपानां क्रन्दितेन च । दत्त्वाऽभयं तु कृष्णो
 वै केशिनं सोऽभिदुद्रुवे ॥ १७ ॥ केशी चाप्युन्नतग्रीवः प्रकाश-
 दशनेक्षणः । हेषमाणो जवोदग्रो गोविन्दाभिमुखो ययौ ॥ १८ ॥
 तमापन्नतं संगेक्ष्य केशिनं हयदानवम् । प्रत्युज्जगाम गोविन्द-
 स्तोषदः शशिनं यथा ॥ १९ ॥ केशिनस्तु तमभ्याशो हृष्टाऽकृष्ण-
 मवस्थितम् । गनुष्यवुद्ग्रयो गोपांः कृष्णमृचुर्दितैपिणः ॥ २० ॥
 कृष्ण तात न खन्वेष सहसा ते हयाधमः । उपसर्पो भवान
 बालः पापश्चैव दुरासदः ॥ २१ ॥ एष कंसस्य सहजः प्राण-
 स्तात बहिरचरः । उत्तमश्च ह्येन्द्राणां दानवोऽप्रतिभो युधि २२
 त्रासनः सर्वभूतानां तुरगाणां महाबलः । अवध्यः सर्वभूतानां

भागने लगीं और जगन्नाथ वासुदेवको पुकारती हुई उनकी
 शरणमें गई ॥ १६ ॥ गोपियोंके रोनेके शब्दसे और गोपोंके
 दफराने पर श्रीकृष्णने उनको अभय दिया और वह केशीके
 सामने जानेको उद्यत हुए ॥ १७ ॥ इधर केशी भी अपनी गर्दन
 ऊँची कर अपने दाँत और नेत्रोंको चमकाता हुआ हींस कर
 गोविन्दके सामने वेगसे दौड़ा ॥ १८ ॥ उस केशी नाम वाले
 हयदानवको आते देख जैसे मेघ चन्द्रमा पर झपटता है इसी
 प्रकार श्रीकृष्ण केशी पर भाटनेके लिये उद्यत हुए ॥ १९ ॥
 गोप श्रीकृष्णको गनुष्य मानते थे अतः उन्होंने उनका हितकरने
 की इच्छासे श्रीकृष्णको केशीके समीप खड़े देख कर कहा, कि-२०
 हे कृष्ण ! तूग इस नीच घोड़ेके पाप साहस करके मत चले जाना
 क्योंकि-हे तात ! तूग बालक हो, और यह पापी दुरासद है २१
 हे तात ! यह तो कंसका बाहर फिरने वाला माण ही है, और
 यह स्वाभाविक रीतिसे अश्वराजोंमें उत्तम है और यह दानव युद्ध
 करनेमें नाभी है २२ इससे सब प्राणी डरते रहते हैं, यह घोड़ोंमें
 महाबली घोड़ा है, और यह सब प्राणियोंमें अवध्य है और पाप

प्रथमः पापकर्मणाम् ॥ २३ ॥ गोपानां तद्वचः श्रुत्वा वदतां मधु-
सूदनः । केशिना सह युद्धाय मतिं चक्रोऽरिसूदनः ॥ २४ ॥ ततः
सन्धं दक्षिणं च मण्डलं स परिभ्रमन् । पद्भ्यामुभाभ्यां स हयः
क्रोधेनाहतं द्रुमान् ॥ २५ ॥ मुखे लम्बसटे चास्य स्कन्धे केश-
घनावृते । वलयोऽभ्रतरंगाभाः सुसुबुः क्रोधजं जलम् ॥ २६ ॥
सफेनं चक्रजं चैव वर्षं रजसा दृग्म् । द्विभ्रुकाले यथा व्योम्नि
नीहारमिव चन्द्रमाः ॥ २७ ॥ गोविन्दमरविन्दात्तं हेपितोद्धारसी-
करैः । सफेनैर्वक्रनिर्गोणैः मोक्षयामास भारत ॥ २८ ॥ खुराद्

कर्म करने वालोंमें अग्रणी है २३ मधुसूदन श्रीकृष्णने गोपोंके
भाषणको सुना तब वह अरिसूदन केशीके साथ युद्ध करनेका
विचार करने लगे २४ इतनेमें ही वह घोड़ा दाईं बाईं ओर चक्कर
काट कर क्रोधमें भर अपने चरणोंसे दृत्तोंको तोड़ने लगा २५
उसके लम्बे अयालवाले और उनसे ज्ञाये हुए मुखमें क्रोधके
कारण पड़ी हुई दादलोंकी तरंगोंकी आभाकी समान बलोंमेंसे
पसीना निकलने लगा २६ जैसे शीतकालमें आकाशमेंसे चन्द्रमा
फुहार बरसाता है, इसी प्रकार वह (खुरांसे उड़ाई हुई) धूलसे
मिले हुए अपने मुखके फेनोंकी वर्षा करने लगा (श्रुतिमें लिखा
है, कि—“न ता अर्वा रेणुककाटो अश्नुते न संस्कृतत्रमुपयन्ति ता
अभि उरुगायमभयं तस्य ता अनुगात्रो गर्तस्य विचरन्ति यज्वनः”
अर्थात् अश्वरूपी असुर गौओं पर दौड़ा, और रेणुकी बड़ी भारी
वर्षा करने लगा, तब वे गौएँ (दाह छेद औपध पान आदिसे
संस्कार करके ब्राह्मण करनेवाले वैद्य) संस्कृतत्रके पास गईं क्यों
कि—वह मर्त्यधर्मा नन्द आदिसे संबंध रखती थीं अतएव वे
महाकीर्ति उन के पास गईं, २७ हे भारत ! उसने कमलकी
समान नेत्रोंवाले गोविन्दको हीसनेके समय निकलने वाली
जलबिन्दुओंसे और मुखमेंसे निकलते हुए फेनोंसे भिगो दिया २८

धृतावसिक्तेन मधुकृत्तोदपांडुना । रजसा स हयः कृष्णं चकारा-
 रूणमूर्धजम् ॥ २६ ॥ प्लुतवन्निगतपादस्तु तत्तमाणो धरां खुरैः ।
 दन्तान्निर्दशमानस्तु केशी कृष्णमुपाद्रवत् ॥ ३० ॥ स संसक्तस्तु
 कृष्णेन केशी तुरगसत्तमः । पूर्वाभ्यां चरणाभ्यां वै कृष्णं
 वन्नस्पताडयत् ॥ ३१ ॥ पुनः पुनः स च वली माहिणोत्
 पारर्वतः खुरान् । कृष्णस्य दानवो घोरं महारममितौजसः ३२
 वक्रेण चास्य घोरेण तीक्ष्णदंष्ट्रायुधेन वै । अदशद्राहुशिखरं
 कृष्णस्य रूपितो हयः ॥ ३३ ॥ स लम्बकेसरसटः कृष्णेन सह
 संगतः । रराज केशी मेघेन संसक्तः ख इवांशुमान् ॥ ३४ ॥
 उरस्तस्योरसा हन्तुमियेष वलवान् हयः । वेगेन वासुदेवस्य
 क्रोधाद् द्विगुणविक्रमः ॥ ३५ ॥ तस्योत्सिक्तस्य वलवान् कृष्णो-
 प्यमितक्तमः । बाहुमाभोगिनं कृत्वा मुखे क्रुद्धः समादधत् ३६

उस दानवने अपने खुरोंसे जेठी मधु टीनकी समान रज उड़ा कर
 श्रीकृष्णके केशोंको अरूण कर दिया २६ तदनन्तर वह पैरोंसे
 कूदता हुआ और अपने सुगोंसे पृथ्वीको खोदता हुआ तथा
 दाँतोंको कटकटाता हुआ श्रीकृष्णकी ओर दौड़ा ३० उस तुरग-
 सत्तम केशीने श्रीकृष्णसे गिलते ही अपने अगले दोनों चरण
 श्रीकृष्णके वन्नःस्थलमें मारे ३१ तदनन्तर वह वली दानव अमित-
 पराक्रमी श्रीकृष्णकी पसुलियोंमें बारंबार खुर मारने लगा ३२
 फिर उस क्रोधमें भरे हुए दैत्यने श्रीकृष्णके भुजारूपी शिखरको
 अपने तीक्ष्ण डाढ़ोंके आयुध वाले भयंकर मुखसे बार २
 नाटा ३३ लम्बी सटा और अयाल वाला वह केशी दानव
 श्रीकृष्णसे गिड़ते समय ऐसा मतीत होता था, मानो आकाशमें
 मूर्ध मेघसे लड़ रहा हो ३४ उस दानवमें क्रोधके कारण दुगना
 पराक्रम आगया, तब वह वलवान् घोड़ा अपने वन्नःस्थलसे
 श्रीकृष्णके वन्नःस्थल पर महार करना चाहने लगा ३५ तब तो

स तं बाहुमशक्तो नै खादितुं भेषुमेव च । दशनैर्भूलनिर्मुक्तैः
 सफेनं रुधिरं वपन् ॥ ३७ ॥ विषादिताभ्यामोष्ठाभ्यां कटाभ्यां
 विदली कृतः । अक्षिणी विकृते चक्रे विसृते मुक्तबन्धने ॥ ३८ ॥
 निरस्तहनुराविष्टः शोणितक्तविलोचनः । उत्कर्णो नष्टचेष्टस्तु
 स केशी चक्रवद् भ्रमन् ॥ ३९ ॥ उत्पतन्नसकृत्पादैः शकृन्मूत्रं
 समुत्सृजन् । खिन्नांगरोमा श्रान्तस्तु निर्यत्नचरणोऽभवत् ४०
 केशी वक्रविलग्नस्तु कृष्णबाहुरशोभत् । व्याभुग्न इव घर्मान्ते
 चन्द्रार्धकिरणैर्घनः ॥ ४१ ॥ केशी च कृष्णसंसक्तः शान्तगात्रो
 व्यरोचत । मभातावनतश्चन्द्रः श्रान्तो मेरुपिवाश्रितः ॥ ४२ ॥
 तस्य कृष्णभुजोद्भूताः केशिनो दशना मुखात् । पेतुः शरदि

अमितविक्रम बलवान् श्रीकृष्णने भी उम बली राजसके मुखमें
 अपने हाथको लम्बा करके घुसेड़दिया ३६ तब वह उनकी भुजा
 को न खा सका और न काट सका और वह अपनी ढाढ़ोंके
 मसूड़ोंमेंसे निकले खूनके भाग गिराने लगा ३७ तदनन्तर उसके
 ओठ चिर गए और उसके गाल अलग २ हो गए, उसके नेत्र फैल
 गए और उसके अञ्जुर पंजर ढीले पड़े गए ३८ उसकी ठोड़ी
 फट गई थी, उसके नेत्रोंमेंसे रक्त निकलने लगा, नेत्र निकल पड़े
 कान उखड़े गए और वह विसंज्ञ होकर चकराने लगा ३९ उसके
 पैर बारबार फड़कने लगे और उसने एक बार मल मूत्रका त्याग
 कर दिया उसके केश और अंग खिन्नहोगए तदनन्तर उसके
 चरणोंमें फड़कना भी बन्द हो गया ॥ ४० ॥ उस समय केशीके
 मुखमें लगी हुई श्रीकृष्णकी भुजा चन्द्रमाकी आधी किरणोंसे
 घिरे हुए चादलकी समान दीख रही थी ॥ ४१ ॥ ढीले
 अंग वाले और श्रीकृष्णसे सटे अङ्ग वाले केशी भी मभाता-
 कालमें मेरुपर्वतका आश्रय लेने वाले चन्द्रमाकी समान दीलेने
 लगा ४२ जैसे शरद ऋतुमें वायु चादलोंको बिखेर देता है तैसे

नस्तोगाः सिताभ्रानयत्रा इव ॥ ४३ ॥ स तु केशी भृशं श्रान्तः
 कृष्णेनाविलष्टकर्मणा । स्वभुजं स्वायतं कृत्वा पाटितो बलवत्तदा
 स पाटितो भुजेनाजौ कृष्णेन विकृताननः । केशी नदन् महा-
 नादं दानवो व्यथितस्तदा ॥ ४५ ॥ विघूर्णमानः स्रस्तांगो मुख-
 दुधिरमुद्रहन् । भृशं व्यनीकृतवपुषुर्निकृत्तार्थ इवाचलः ॥ ४६ ॥
 व्यादितास्यो महारौद्रः सोऽसुरः कृष्णबाहुना । निपपात यथा
 कृत्तो नागो हि द्विदली कृनः ॥ ४७ ॥ बाहुना कृत्तदेहस्य केशिगो
 रूपावर्षा । पशोरिव महाघोरं निहतस्य पिनाकिना ॥ ४८ ॥
 द्विपादमृष्टपुञ्जार्थे श्रवणैकाक्षिनासिके । केशिनस्तद् द्विधाभूते द्वे
 चार्थे रेजतुः क्षिर्त्तो ॥ ४९ ॥ केशिदन्तक्षतस्यापि कृष्णस्य शुशुभे
 भुजः । वृद्धः साल इवारण्ये गजेन्द्रदशनांकितः ॥ ५० ॥ तं हत्वा

ही कृष्णकी भुजासे उखड़े हुए केशीके दाँत बिखरने लगे ४३
 इस प्रकार बिना ज्ञेश पाये कर्म करने वाले श्रीकृष्णने अपनी
 भुजाको मोटी करके श्रान्त हुए केशीको मार डाला था ४४
 इस प्रकार श्रीकृष्णकी भुजासे उखाड़ा हुआ वह केशी दानव
 महानाद करता हुआ व्यथित होगया था और उसका मुख विगड़
 गया था ४५ वह चक्रराने लगा था, उसके अंग ढीले पड़ गए थे
 और वह मुखमेंसे रुधिर आँसूने लगा था उसके शरीरमेंसे बहुतसे
 अंग निकल गए थे इस लिये वह काटे हुए आधे पर्वतकी समान
 प्रतीत होता था ४६ कृष्णकी भुजाके कारण जिसका मुख फँल
 गया था ऐसा वह दानव दो टुकड़े किये हुए नागकी समान
 गिर पड़ा ४७ भुजासे टुकड़े किये हुए शरीर वाले केशीका रूप
 पिनाकीके द्वारा गारे हुए पशुकी समान जँव रहा था ४८ दो पैर
 आधी पूँज तथा एक कान नेत्र/माँ रनासिकादिद्र वाले केशीके
 आधे दो खण्ड शोभायमान दीखने लगे ४९ जैमे पुराना सालका
 टुकड़ा हाथियोंके दाँतोंसे लून होने पर दीग्वता है, इसी प्रकार

केशिनं युद्धे कल्पयित्वा च भागशः । कृष्णः पद्मलाशात्तो
 हसंस्तत्रैव तस्थिवान् ॥ ५१ ॥ तं हतं केशिनं दृष्ट्वा गोपः गोप-
 स्त्रियस्तथा । वभ्रुवुर्मुदिताः सर्वे हतविघ्नहतक्रमाः ॥ ५२ ॥
 दामोदरं तु श्रीमन्तं यथास्थानं यथावयः । अभ्यनन्दन् प्रियै-
 र्वाक्यैः पूजयन्तः पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ गोपा ऊचुः । अहो तात
 कृतं कर्म हनोऽयं लोककण्टकः । दैत्यः त्रितिवरः कृष्ण इयरूपं
 समास्थितः ॥ ५४ ॥ कृतं वृन्दावनं क्षेमं सेव्यं नृमृगपत्तिणाम् ।
 घ्नता पापपिमं तान केशिनं हयदानवम् ॥ ५५ ॥ हता नो बहवो
 गोपा गावो वत्सेषु वत्सलाः । नैके चान्ये जनपदा हताऽनेन
 दुरात्मना ॥ ५६ ॥ एष सम्भर्तकं कर्तुमुद्यतः खलु पापकृत् ।
 नृलोकं निर्जरं कृन्वा वर्तुः कापो यथासुखम् ॥ ५७ ॥ नैतस्य प्रमुखे

केशीके दोंतोंसे घायल हुआ श्रीकृष्णका हाथ भी शोभा पाने
 लगा ५० केशीको युद्धमें मार और उसके भाग २ कर पद्मपत्रकी
 समान नेत्र वाले कृष्ण तहाँ खड़े २ हँसने लगे ॥ ५१ ॥ केशीको
 मरा हुआ देख कर निश्र और परिश्रमके जाते रहनेसे गोप और
 गोपियें परम प्रसन्न हुए ॥ ५२ ॥ तब वे दामोदरका स्थान और
 अवस्थाके अनुसार प्रियवाक्योंसे पूजन कर उनका अभिनन्दन
 करने लगे ॥ ५३ ॥ गोपोंने कहा, कि-हे कृष्ण ! आपने बड़ा
 भारी कर्म किया, कि हे तात ! कि-तुमने पृथ्वीमें घोड़ेके रूपमें
 त्रिवरण करने वाले इस राजसहो मार डाला ॥ ५४ ॥ हे तात !
 आपने इस अश्वरूपधारी केशी दानवको मार कर वृन्दावनको
 निष्कण्टक कर दिया है अब मनुष्य मृग और पत्नी इसका सेवन
 कर सकेंगे ॥ ५५ ॥ इसने हमारे बहुतसे गोप और वत्सवत्सला
 गाँवोंको मार डाला था और इस दुरात्माने और भी बहुतसे
 ग्रामोंको उजाड़ दिया है ॥ ५६ ॥ यह पापी तो मनुष्यलोकको
 मनुष्यरहित कर यथेच्छ विहार करनेकी इच्छासे प्रलय करनेको

स्थातुं कश्चिच्छको जिजीविषुः । अपि देवसमूहेषु किं पुनः
 पृथिवीतले ॥ ५८ ॥ अथाहान्तर्हितो विषो नारदः खगमो मुनिः।
 प्रीतोऽस्मि विष्णो देवेश कृष्ण कृष्णेति चाब्रवीत् ॥५९॥ नारद
 उवाच । यदिदं दुष्करं कर्म कृतं केशिजिघांसया । त्वय्येव केवलं
 युक्तं त्रिदिवं त्र्यम्बकस्य वा ॥ ६० ॥ अहं युद्धोत्सुकस्तात त्वद्
 गतेनान्तरात्मना । इदं नरहगं युद्ध द्रष्टुं स्वर्गादिहागतः ६१
 पूतनानिधनाद्रीनि कर्माणि तव दृष्टवान् । अहं त्वनेन गोविन्द
 कर्मणा परितोषितः ॥ ६२ ॥ इयादस्मान्महेन्द्रोऽपि विभेति बल-
 सूदनः । कुर्वाणाच्च वपुर्घोरं केशिनेो दुष्टचेतसः ॥६३॥ यत्त्वया
 पादितो देहो भुजेनायतपर्वणा । एषोऽस्य मृत्युरन्ताय विहितो
 विश्वयोनिनो ॥ ६४ ॥ यस्माच्चया हतः केशी तस्मान्मच्छासनं

ही तयार होगया था ॥ ५७ ॥ जो अग्ने पाणोंकी रक्षा करना
 चाहता हो वह देवता भी उसके सामने नहीं जाता था, फिर
 पृथ्वीतलके मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? ॥ ५८ ॥ इसके
 उपरान्त अन्तर्धान हुए नारदने आकाशमें विचरण कर कहा,
 कि-हे विष्णो ! हे देवेश ! हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! मैं तुमसे परम
 प्रसन्न हूँ ॥ ५९ ॥ नारदजीने कहा, कि-आपने केशीको मारने
 की इच्छासे जैसा दुष्कर कर्म किया है, ऐसा कर्म तो आप ही कर
 सकते हैं, वा स्वर्गमें त्र्यम्बरु महादेव कर सकते हैं ॥ ६० ॥ हे
 तान ! मैं आपका युद्ध देखना चाहनेके लिये उत्सुक था, इसी
 लिये मैं मनुष्य और घोड़ेके युद्धको देखनेके लिये स्वर्गसे आया
 था ६१ मैंने पूतनावध आदि कर्म भी देखे थे और आपके इस
 कर्मसे तो मैं प्रसन्न ही होगया हूँ ६२ जब यह दूषित मन वाला
 केशी अपने घोर रूपको धारण कर लेता था उस समय बल
 देत्यको मारने वाला इन्द्र भी इससे डरता था ६३ तुमने अपनी
 भुजाको लम्बी करके इसके मुखमें डाल दिया था, विश्वयोनि

शृणु ॥ केशवो नाम नाम्ना त्वं ख्यातो लोके भविष्यसि ६५
 स्वस्त्यस्तु भातो लोके साधु यान्यहमाद्युगः । कृत्यशेषं च ते
 कार्यं शक्तस्त्वमसि मा चिरम् ॥ ६६ ॥ त्वयि कार्यान्तरगते नरा
 इव दिवोकसः । विडम्बयन्तः क्रीडन्ति लीलां त्वद्वलमाश्रिताः
 अभ्यासे वतते कालो भारतस्याहवोदयेः । हस्तप्राप्तानि युद्धानि
 राज्ञां त्रिदिवगामिनाम् ॥ ६८ ॥ पन्थानः शोधिता व्योम्नि विमा-
 नारोहणोर्ध्वगाः । अबकाशा विभज्यन्ते शकल्लोके महीक्षिताम् ६९
 उग्रसेनसुते शान्ते पदस्थे त्वयि केशव । अभितस्तन्महद्युद्धं भवि-
 ष्यति महीक्षिताम् ॥ ७० ॥ त्वां चाप्रतिमरूपार्णं संश्रगिष्यन्ति
 पाण्डवाः । भेदकाले नरेन्द्राणां पत्न्यग्राहो भविष्यति ॥ ७१ ॥
 त्वयि राजासनस्थे हि राजश्रियमनुत्तमाम् । शुभां त्यज्यन्ति राजा-

ब्रह्माजीने इसकी मृत्यु इसी प्रकार रची थी ६४ तुमने केशी देव्य
 को मार डाला है अब तुम मेरे शासनको सुनो, कि इसी कारण
 तुम संसारमें केशव नामसे गतिद्ध होगे ६५ आपका संसारमें
 कल्याण हो अब मैं शीघ्रतासे जाता हूँ अब आप अपने बचे हुए
 कार्यको शीघ्रतासे पूर्ण करिये ६६ आपके भूभा उतारनेके लिये
 अनार लेने पर आपके बल का आश्रय लेकर देवना भी विडम्बना
 करते हुए मनुष्योंकी समान लीला कर रहे हैं ६७ अब महा-
 भारतरूपी रणसागरकी समय सभीप ही है अब स्वर्गमें जानेवाले
 राजाओंको युद्ध हस्तप्राप्तमा है ॥ ६८ ॥ अब इन्द्रलोकमें
 राजाओंके लिये मार्ग बनाये जा रहे हैं और उनके विमानमें बैठ
 कर जानेके लिये आकाशमें अबकाश बनाये जा रहे हैं ६९ केशव
 जब उग्रसेनका पुत्र शान्त होजायगा और तुम रत्नरु पद पर
 नियुक्त होजाओगे तब चारों ओर राजाओंमें बड़ा भारी युद्ध
 मचेगा ७० वस समय आप इन्द्रकण्ड मनुष्यका पाण्डव आश्रय लेंगे
 और राजाओंकी गद्दबद्दीके समय आप उनका पत्न ग्रहण करेंगे

नस्त्वत्प्रभावान्न संशयः ॥ ७२ ॥ एष मे कृष्ण सन्देशः श्रुतिभिः
 ह्याग्निमेव्यति । देवतानां दिविस्थानां जगत्तश्च जगत्पते ७३
 दृष्टं मे गवतः कर्म दृष्टश्चासि मया प्रभो । कंसे, भूयः समेष्याग्नि-
 साधिते साधु याम्यहम् ॥ ७४ ॥ एवमुक्त्वा तु स तदा नारदः
 स्रं जगाम ह । नारदस्य वचः श्रुत्वा देवसंगीतयोनिनः ॥ ७५ ॥
 तथेति स समाभाष्य पुनर्गोपान् समासदत् । गोपाः कृष्णं सगा-
 साद्य निविशुर्ब्रजमेव ह ॥ ७६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि केशि
 वये चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

जब आप राजासन पर आरूढ़ होजावेंगे तब आपके प्रभावसे
 दूसरे राजे अपनी शुभ और उत्कृष्ट राज्यलक्ष्मीको त्याग देंगे ७२
 हे जगत्पते कृष्ण ! मेरा यह सन्देश श्रुतियोंमें है अब स्वर्गस्थ देवता
 और जगत्में भी प्रसिद्ध होगायगा (श्रुतिमें लिखा है, कि—
 “अद्वय कृष्णपरर्जुनं च विवर्तेते रजसी वेम्वापिः । वैश्वानरो
 जायमाने । न राजा वातिरऽऽपोतिपाग्निस्तमांसि ॥’ युद्धयज्ञ
 श्रीकृष्णको निमित्त करके हुआ था और युद्धयज्ञ ऋर्जुनको
 निमित्त करके भी हुआ था ये दोनों (का) यज्ञ रजोगुणी (प्राप्त
 करने योग्य) वेया संपन्निके कारण हुआ था, अग्निने (खाएहव
 चनमे दिये हुए स्वरूपसे) अयर्गरूप में सुगंरकारोंका नाश करने
 में उनको सहायता दी थी) ॥ ७३ ॥ हे प्रभो ! मैंने आपका
 कर्म देख लिया और आपका दर्शन भी कर लिया अब जब आप
 कसको गाँगे तब मे फ़िर आऊँगा ॥ ७४ ॥ इस प्रकार बातचीत
 करके नारदजी आकाशको चले गए और श्रीकृष्ण देवताओंके
 संगीतकी उत्पत्ति कराने नारदजीमें तथास्तु कह कर गोपोंमें
 आगिले और श्रीकृष्णके आने पर गोप भी ब्रजमें चले गए ७५-७६
 नौवीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २४ ॥

वैशम्पायन उवाच । अथास्तं गच्छति तदा मन्दस्पर्शो दिवा-
 करे । सन्धारक्तवले व्योम्नि शशांके पाण्डुगण्डले ॥ १ ॥
 नीडस्थेषु विहगेषु सत्सु प्रादुष्कृताग्निषु । ईयत्तमः संवृतासु
 दिक्षु संव्राणु सर्वशः ॥ २ ॥ घोंपवासिषु सुप्तेषु वाशन्तीषु शिवासु
 च । नक्तंचरेषु हृष्टेषु पिशिताशनकाक्षिषु ॥ ३ ॥ शक्रगोपाहवा-
 मोदे गदीपेऽध्यासतस्करे । सन्ध्यागयीमिव गृहा संप्रतिष्ठे दिवा-
 करे ॥ ४ ॥ अश्विप्रणवेलायां प्राप्तायां गृहमेधिनाम् । वन्यैर्वै-
 रवानसैर्मन्त्रैर्हृषयाने हुनाशने ॥ ५ ॥ उपावृत्तासु वै गोषु दुह्य-
 मानासु च व्रजे । असकृद्दयाहान्तीषु वद्धवत्सासु धेनुषु ॥ ६ ॥
 मकीर्णदापनीरेषु गासथैवाह्वयत्सु च । सनिनादेषु गोरेषु
 वैशम्पायनजीने कथा, कि इसके उपरान्त जब सूर्य अस्ताचल
 पर जाने लगे और उनकी किरणें मन्द होने लगीं और संया
 के समय आकाशका तल रक्त होगया तथा चन्द्रमा पीला र
 दीवने लगा ॥ १ ॥ और पत्नी अपने र घोंपलोंमें बैठ गए
 और सज्जनोंने अपने अग्निहोत्रकी अग्निगोंको प्रकट कर दिया
 था और सब दिशाओंमें थोड़ा र अंधकार फैला हुआ था र
 और जब घोंपवासी निद्रा लेने लगे थे और गीदड़ियें बोलने
 लगी थीं और मांभभक्षण करना चाहने वाले जब हर्षमें भर कर
 रात्रिमें विचरण करने लगे ॥ ३ ॥ आतप तप्त इन्द्र और गोपों
 को अति प्रसन्न करने वाले और स्वाध्यायको निवृत्त करने वाले
 अंधकारके फैलने पर जब सूर्य सन्ध्यागयी गृहार्थे प्रतिष्ठ होगया ४
 और जब गृहस्थाश्रमियोंका अग्निहोत्रके लिये अग्निमें दृग्ध
 स्थापित करने का समय आगया और जब वानप्रस्थ (नीवाह
 आदि) वनके भान्णोंकी पंच पद र कर अग्निमें आहुति देने
 लगे ॥ ५ ॥ और जब व्रतमें गौश्रौंका दूहा जाना बंद होगया
 तब निगके बद्धे वै र ठे थे वे गौषं वावाग र्हा र करने

कान्यमाने च गोधने ॥७॥ करीषेषु प्रवल्क्षेषु दीप्यमानेषु सर्वशः ॥
 काष्ठभाराननस्कन्धैर्गोपै रभ्यगतेस्तथा ॥ ८ ॥ किञ्चिद्भ्युद्यते
 सामं मन्दरश्मौ विराजति । ईषद्विगाहमानायां रजन्यां दिवसे
 गते ॥९॥ प्राप्तं दिनव्युपरमे प्रवृत्तौ क्षणदामुखे । भाभ्करं तेजसि
 गते सौम्ये तेजस्वुपस्थिते ॥१०॥ अग्निहोत्राकुले काले सौम्येन्दौ
 समुपस्थिते । अग्नीषोमात्मके सन्ध्यां वर्तमाने जगन्मये ॥ ११ ॥
 पश्चिमेनाग्निदीप्तेन पूर्वणोत्पल्लवर्चसा दग्धाद्रिसदृशे व्योम्नि
 किञ्चित्त्तारागणाकुले ॥ १२ ॥ वयोभिर्वासमृशनां बन्धुभिरव
 सपागमम् । शंसद्भिः स्पन्दनेनाशु प्राप्तो दानपतिर्ब्रजम् ॥१३॥

लर्गी ॥ ८ ॥ जब गोप गोधनके चाँधनेके लिये हाथमें लटकती
 हुई रस्सियों ले (गौआँके) जुलाने फिर रहे थे । ७ ॥ और
 काष्ठके भारसे जिनके कंधे लच रहे थे ऐसे कोप जब आकर अन्ने
 उपलोंके इकट्ठे कर उनको सुलगाने लगे ॥ ८ ॥ उस समय
 चन्द्रमा कुछ उठगया था और वह गन्द २ किरणोंसे विराजमान
 होरहा था, दिन बीत गया था और थोड़ी २ रात्रि हुई थी ९
 उस समय दिन बीत गया और रात्रिका अरंभ होरहा था, सूर्य
 की धूग छिप गई थी और चन्द्रमाकी चाँदनी धीरे २ फैल रही
 थी १० उस समय अग्निहोत्र करनेका समय आगया था और
 सौम्य चन्द्रमा निकल आया था और जगत्में व्याप्त अग्नीषोमा-
 त्मक संधिका समय आगया था (यहाँ अग्नीषोमको जगत्में व्याप्त
 कह कर उनका भोक्तभोग्यात्मकत्व दिखाया है) ॥ ११ ॥ उस
 समय पश्चिमकी ओरका आकाश (सूर्यास्तका समय होनेके
 कारण) अग्निकी समान पदीप्त होरहा था और पूर्वका आकाश
 कमलही समान उज्ज्वल होरहा था और उस प्रज्वलित होते
 हुए पर्वतकी समान आकाशमें कुछ २ तारे निकल रहे थे १२
 उस समय पत्नी बोल कर यह सूचना देने लगे कि-कोई संबंधी

प्रविशन्नेन पगच्छ सान्निध्यं केशवस्य सः । रौद्रिण्यस्य चाक्रु-
 नन्दगोपस्य चासकृत् ॥ १४ ॥ स नन्दगोपस्य गृहं वासाय
 विवृशोपमः । अवतीर्णं ततो यागात् प्रविशेश महाबलः ॥ १५ ॥
 हर्षपूर्णेन वक्रेण साश्रुनेत्रेण चैव हि । प्रविशन्नेव च द्वारि-
 ददर्शादोदने गवाम् ॥ १६ ॥ वत्समध्ये स्थितं कृष्ण सवत्समिव
 गोवृषम् । स तं हर्षपरीतेन ववसा गद्गदेन वै ॥ १७ ॥ एहि
 केशव तातेति प्रव्याहरत धर्मवित् । उत्तानशायिनं दृष्ट्वा पुनर्दृष्ट्वा
 श्रिगः वृतम् ॥ १८ ॥ अव्यक्तगोचरं कृष्णमक्रूरः प्रशशांस ह ।
 अयं स पुण्डरीकान्तः सिंहशार्दूलविक्रमः ॥ १९ ॥ सम्पूर्णजल-

आकर निवास करना चाहता है इतनेमें ही शीघ्रगामी रथमें
 बैठे हुए दानपति अक्रूर व्रजमें पहुँच गए ॥ १३ ॥ उन्होंने
 व्रजमें प्रवेश करते ही श्रीकृष्ण बलराम और नन्दगोपके स्थान
 को बारम्बार वृक्षना आरम्भ करदिया ॥ १४ ॥ तदनन्तर देवता
 की समान मतीत होने वाले महाबली अक्रूर अपने रथपरसे
 उतर कर नन्दगोपके घर ठहरनेके लिये उतर पड़े ॥ १५ ॥ जब
 वह नेत्रोंमें हर्षके आसूँ भर प्रसन्नमुखसे द्वारमें घुसे थे, कि-
 उन्होंने गौश्रोंके दुहनेके स्थानमेंको बछड़ोंको लेकर खड़े हुए
 साँडकी समान ? देखा, बछड़ोंके पास खड़े हुए श्रीकृष्ण तब
 वह धर्मात्मा हर्षगद्गदस्वरसे “हे तात ! केशव ! आइये” कहने
 लगे, अक्रूरने उनको (शास्त्रोंमें) (कृष्णान्तमें बटपत्र पर) चरण
 को उत्तान कर सोते हुए देखा था और उन्होंने (वामनावतारमें)
 त्रिलोकीका आक्रमण करनेमें समर्थ (बटकरूपधारी) देखा
 था ॥ १६-१८ ॥ इस समय अक्रूर अयस्थाकी सन्धिमें पहुँचे
 हुए श्रीकृष्णकी प्रशंसा करने लगे कि-इन श्रीकृष्णके नेत्र
 कमलकी समान हैं और सिंह तथा शार्दूलकी समान गमन करते
 हैं ॥ १९ ॥ इनकी आभा जलपरे मेघकी समान दीख रही है

मेवाभः पर्वतप्रवराकृतिः । मृधेष्वध्वर्षणीयेन सश्रीवत्सेन वृक्षसा
द्विपन्नधनदत्ताभ्यां भुजाभ्यां साधुभूषितः ॥ २० ॥ मूर्तिमान्
स रहस्यात्मा जगतोऽग्रधस्य भाजनम् । गोपत्रेपथरो विष्णुरुद
ग्राउगतनूरुहः ॥ २१ ॥ किरीटलाङ्घनेनापि शिरसा द्यत्रवर्चसा ।
कुण्डलोत्तमयोग्याभ्यां श्रवणाभ्यां त्रिभूषितः ॥ २२ ॥ हारा-
हेण च पीनेन सुविस्तीर्णं वृक्षसा । द्वाभ्यां भुजाभ्यां वृक्षाभ्यां
दीर्घाभ्यामुपशोषितः ॥ २३ ॥ स्त्रीसहस्रोपचर्षेण वपुषा पन्मथा
धिना । पीने वसानो वसने सोऽयं विष्णुः सनातनः ॥ २४ ॥
धरणश्रयभूषाभ्यां चरणाभ्यामरिन्दमः । त्रैलोक्याक्रान्ति-
भूताभ्यां भुवि पद्भ्यां व्यवस्थितः ॥ २५ ॥ रुचिराग्रकररत्नास्य

और इनकी आकृति श्रेष्ठ पर्वतकी समान है और यह संग्रामोंमें
अष्टपुत्र श्रीवत्सके चिन्ह वाले वृक्षःस्थल और शत्रुओंकी मृत्यु
करनेमें कुण्डल भुजाओंसे भली प्रकार त्रिभूषित होरहे हैं २०
और यह मूर्तिमान् उपनिषद्भोक्त पुरुष हैं और प्रथम पूजा पाने
के पात्र हैं और इनके केशोंके अग्रभाग श्रेष्ठ हैं अर्थात् यह भक्तों
का दर्शन करते ही पुलकित होजाते हैं ॥ २१ ॥ यह द्यत्रकी
समान क्रान्तिवाले किरीटको धारण करते हैं और इनके कान
उत्तम कुण्डलोंको धारण करने योग्य है ॥ २२ ॥ यह हार पहिरने
योग्य विस्तीर्ण और पुष्ट वृक्षःस्थल और दोनों गोल और मोटी
भुजाओंसे शोभा पा रहे हैं ॥ २३ ॥ यह पन्मथाधि (जिसमें
कामका आधान होता है ऐसे यौवन और पीगण्डावस्थानी
सन्धिकाल) वाले सदस्रों स्त्रियोंके सेवन करनेयोग्य शरीर पर
सनानन विष्णु पीले वस्त्र धारण कर रहे हैं ॥ २४ ॥ यह अरि-
दान् पृथ्वीके आश्रयभूत और भैलोकीको तापने वाले चरणोंसे
भव पृथ्वीमें स्थित हैं ॥ २५ ॥ इनका दाहिना रुचिर हाथ
चक्राकिनकी समान दीर्घरहा है और दूमरा उठा हुआ बाय

चक्रांकित इवेत्तते । द्वितीय उद्यतरचापि गदासंगोगमिच्छति २६
 अचनीर्णा भवायेह, मथमं, पदमात्मनः । शोभतेऽद्य भुवि श्रेष्ठित्रि-
 दशानां घुग्न्धरः ॥ २७ ॥ अयं भविष्ये हृष्टो वै भविष्यकुशलै-
 नेरैः । गोपालो यादवं वंशं क्षीणं विस्तारयिष्यति २८ तेजसा
 यादवाश्चास्य शतशोऽथ सहस्रशः । वंशमापूरयिष्यन्ति ह्योद्या
 इव महार्णवम् ॥ २९ ॥ अस्यांद् शासने सर्वं जगत् स्थास्यति
 शाश्वतम् । निहतामित्रसामन्त स्थितं कृतयुगे तथा ॥ ३० ॥
 अगमास्थाय वसुधां स्थापयित्वा जगद्वशे । राज्ञां भविष्यत्युपरि-
 न च राजा भविष्यति ॥ ३१ ॥ नूनं त्रिभिः क्रमैर्जित्वा यथाऽग्नेन
 प्रभुः कृतः । पुरा पुरंदरो राजा देवतानां त्रिविष्टपे ॥ ३२ ॥
 तथैव वसुधां जित्वा जितपूर्वा त्रिभिः क्रमैः । स्थापयिष्यति

(हाथ) गदा पकड़ने योग्य दीखता है ॥ २६ ॥ पृथ्वीमें संसार
 का कल्याण करनेके लिये अपने चर्चे पदसे यह देवताओंमें
 घुग्न्धर उत्पन्न होकर शोभा पारहे हैं अर्थात् यह आत्माके
 विश्व तैजस माज्ञ और तुरीय नामक चार पदोंकी समान उत्पत्ति
 क्रमकी अपेक्षा, मथमपद, निर्गुण ब्रह्म हैं २७ पहिले भविष्य देखनेमें
 कुशल घुरूपोंने भविष्य देखा था, कि—“यह गोपाल क्षीण हुए
 यादववंशका उद्धार करेंगे २८ नदियोंके पूर, जैसे समुद्रको पूर्ण
 करते हैं तैसे इनके तेजके प्रभावसे सैं ऋद्धीं और सहस्रों यादव,
 यादववंशको पूर्ण करेंगे २९ शाश्वत और संपूर्ण जगत् इनके
 शासनमें स्थित होजायगा, उस समय इनके शत्रु और सामन्त नष्ट
 होजावेंगे और जगत् सत्ययुगकी समान होजावेगा ॥ ३० ॥ यह
 वसुधातल पर रह कर सब जगत्को वशमें कर लेंगे और राजाओं
 पर अधिष्ठित होंगे, परन्तु राजा न होंगे ॥ ३१ ॥ पहिले इन्हीं
 ने तीन चरणोंसे जैसे स्वर्गमें देवताओंके रागा, इन्द्रके, लोकोके,
 नाप कर निष्पाप कर दिया था ॥ ३२ ॥ इसी प्रकार यह पहिले

राजानमुग्रमेनं न सशयः ॥ ३३ ॥ प्रसृष्टवैरगाधोऽयं प्रश्नैश्च
 बहुभिः श्रुतः । ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादैश्च पुराणोऽयं हि गीयते ३४
 स्पृहणीयो हि लोकस्य भविष्यति च केशव । तथा ह्यस्योत्थिता
 बुद्धिर्मानुष्यमुपजीवितुम् ॥ ३५ ॥ अहं त्वस्याद्य वसतिं पूज-
 यिष्ये यथात्रिधि विष्णुत्वं मनसा चैव पूजयिष्यामि मन्त्रवित् ३६
 यच्च ज्ञानिपरिज्ञानं प्रादुर्भाविश्च वै नृषु । अमानुषं वेद्मि चैनं
 ये चान्ये दिव्यचक्षुषः ॥ ३७ ॥ सोऽहं कृष्णेन वै रात्रौ संमंत्र्य
 विदितात्मना । सहानेन गमिष्यामि सत्रज्ञो यदि मंस्यते । ३८ ॥

अपने तीन चरणोंसे जीती हुई पृथ्वीको फिर जीत कर उस पर
 राजा उग्रसेनको स्थापित करेगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ३३
 यह फैले हुए वैरका पार (अन्त) करने वाले हैं अर्थात् शम
 और कामना आदिका पारस्परिक विरोध इनको पारने पर शान्त
 होजाता है, अत एव (प्रश्नोपनिषद् में छ) बहुतसे प्रश्नोंमें इन
 का प्रतिपादन किया है और ब्रह्मवादी ब्राह्मण इनको पुराण
 पुरुष कहा करते हैं ॥ ३४ ॥ यह केशव इस लोकमें स्पृहणीय
 होंगे और इनमें उत्पन्न हुई बुद्धि मनुष्यजीवन चलानेके लिये
 उपयोगी होगी ॥ ३५ ॥ मैं वेदवेत्ता हूँ अत एव इनकी पहिली
 वसति (निवासस्थान)की शास्त्रानुसार पूजा करूँगा और मन
 में इनके विष्णुत्व (व्यापकत्व) की पूजा करता रहूँगा ॥ ३६ ॥
 यद्यपि मैं इनकी (वर्तमान) जातिको जानता हूँ और यह भी
 जानता हूँ, कि-यह मनुष्योंमें उत्पन्न हुए हैं, तब भी मैं इनको
 अमानुष ही मानता हूँ और दूसरे दिव्य नेत्र वाले पुरुष भी
 ऐसा ही समझते हैं ॥ ३७ ॥ अत एव मैं आत्मज्ञानी श्रीकृष्ण
 से रात्रिमें सलाह करूँगा और यह तथा ब्रह्मवासी मान जावेंगे,
 तो मैं इनके साथ मयुराको चलेँगा ॥ ३८ ॥ इस प्रकार बहुतसे

एवं बहुविधं कृष्णं दृष्ट्वा हेत्वर्थकारणैः । विवेश नन्दगोपस्य
कृष्णेन सह संसदम् ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि अक्रूरा-
गानं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

वैशम्पायन उवाच । स नन्दगोपस्य गृहं मविष्टः सहकेशवः ।
गोपद्वन्द्वान्समानीय प्रोवाचामितदक्षिणः ॥ १ ॥ कृष्णं चैवा-
ब्रवीत् प्रीत्या रौहिणेयेन संगतम् । श्वः पुरी मथुरां तात गमि-
ष्याम सुखाय वै ॥२॥यास्यन्ति च ब्रजाः सर्वे गोपालाः सपरि-
ग्रहाः । कंसस्य समुचितं करमादाय वार्षिकम् ॥ ३ ॥ समृद्ध-
स्तत्र कंसस्य भविष्यति धनुर्महः । तं द्रक्ष्यथ समृद्धं च स्वजनैश्च
समेष्यथ ॥ ४ ॥ पितरं वसुदेवं च सततं दुःखभाजनम् । दीनं
पुत्रवधश्रान्तं युवामद्य समेष्यथ ॥ ५ ॥ सततं पीड्यमानं च

वेदेक्त कारणोंसे हरिका विवेचन कर अक्रूरजी श्रीकृष्णके साथ
नन्दगोपके घरमें घुसे ॥ ३६ ॥ पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त २५

वैशम्पायनजीने कहा, कि-अक्रूरजी श्रीकृष्णके साथ नन्द-
गोपके घरमें घुसे, फिर दानपति अक्रूरने दृढ़ २ गोपोंसे बुला
कर उनसे कहा ॥ १ ॥ और उन्होंने बलरामके साथ बैठे हुए
श्रीकृष्णसे भी कहा, कि-हे तात ! हम कल सुख पानेके लिये
मथुराको चलेंगे ॥२॥ और कंसकी आज्ञानुसार सब गोपाल भी
अपने कुटुम्बके साथ वार्षिक कर लेकर मथुराको चलेंगे ॥ ३ ॥
तहाँ पर कंसका अतिसमृद्ध धनुर्मख नामक उत्सव होगा, उस
बड़े भारी उत्सवको तुम देखना और तहाँ अपने आदमियोंसे
तुम्हारी जान पहिचान होजावेगी ॥ ४ ॥ और तुम सर्वदा दुःख
भोगने वाले पुत्रोंका वध होनेसे श्रान्त और दीन अपने पिता
वसुदेवसे भी मिल सकोगे ॥ ५ ॥ अशुभ बुद्धि कंस उन
को सर्वदा पीड़ित करता रहता है, दृढ़ावस्थाके कारण उनका

कंसेनाशुभबुद्धिना । दशान्ते शोपितं वृद्धं दुःखैः शिथिलतां
 गतम् ॥ ६ ॥ कंसस्य भयसन्त्रस्तं भवद्भयां च विना कृतम् ।
 दत्तमानं दिवारात्रौ सोत्क्रण्टेनान्तरात्मनो ॥७॥ तां च द्रक्ष्यसि
 गोविन्द पुत्रैरमृदितस्तनीम् । देवकीं देवसंक्राशां सीदतीं विहृत-
 मभाम् ॥ ८ ॥ पुत्रशोकेन शुष्यन्तीं त्वद्दर्शनपरागणाम् । वियोग-
 शोकसन्तप्तां विवत्सामिव सौरभीम् ॥९॥ उपप्लुतेक्षणां दीर्घां
 नित्यं मलिनवाससम् । स्वर्भानुवदनग्रस्तां शशांकस्य मभागिव १०
 त्वद्दर्शनपरां नित्यं तत्रागमनकाक्षिणीम् । त्वत्प्रवृत्तेन शोकेन
 सीदन्तीं वै तपस्विनीम् ॥११॥ त्वत्प्रलापेष्वङ्कुशलां त्वया वान्ये
 वियोजिताम् । अरूपज्ञां तव विभो वक्रस्यास्येन्दुवर्चसः ॥१२॥

रक्त मांस मूख गया है और वह दुःखोंके कारण शिथिल होगए
 हैं ॥ ६ ॥ उन्होंने, कंसके भयसे डर कर तुमको अलग करदिया
 था, परन्तु उनके मनमें (तुम्हारे दर्शनकी) सर्वदा उत्क्रण्टा
 बनी रहती है और (वह तुम्हारे वियोगसे) रात दिन जलते
 रहते हैं ॥ ७ ॥ और हे गोविन्द ! तहाँ तुम अपनी माता देवकी
 को भी देखोगे, उसके स्तनोंको पुत्रोंने नहीं पकडा है वह देवकी
 देवताकी समान है परन्तु उसकी प्रभा नष्ट होगई है ॥८॥ वह
 पुत्रशोकके कारण मूख गई हैं और तुम्हारा दर्शन करना चाहती
 हैं और वह तुम्हारे वियोगके शोकसे बद्धइसे रहित हुई गौकी
 समान दुःख पारही हैं ॥ ९ ॥ उनके नेत्र ,सर्वदा भरे रहते हैं
 और वह दीन रहती हैं, सर्वदा मलिन वस्त्र पहिरे रहती हैं इस
 लिये वह राहुके मुखमें पड़ी हुई चन्द्रमाकी मभाकी समान प्रतीत
 होती हैं ॥ १० ॥ वह तुम्हारे आगमनकी बात देखती रहती हैं
 और तुम्हारे शोकके कारण वह तपस्विनी दुःख पाती रहती
 हैं ॥ ११ ॥ तुम उनसे बालकपनमें ही अलग होगए थे, अतः
 वह तुम्हारे प्रलापों (तोनली बोली आदि)को नहीं जानती हैं,

यदि त्वां जनयित्वा सा देवकी सात तप्यते । अपत्यार्थोऽत्र
 कस्तस्या वरं ह्येवानपत्यता ॥१३॥ अपुत्राणां हि नारीणां एकः
 शोको विधीयते । सपुत्रा त्वफले पुत्रे भिक्त्वा प्रजा तेन तप्यते १४
 त्वं तु शक्रसगः पुत्रो यस्यास्त्वसदृशो गुणैः । परेषामप्यभयदो
 न सा शोचिषुमर्हति ॥ १५ ॥ वृद्धो तवाम्बपितरौ परभृत्यत्व-
 भागतौ । भर्त्सितौ त्वत्कृते नित्यं कंसेनाशुभमुद्धिना ॥ १६ ॥
 यदि ते देवकी मान्या पृथिवी वात्मधारिणी । तां शोकसलिले
 मग्नानुचारयितुमर्हसि ॥ १७ ॥ तं च वृद्धं मियच्छतं वसुदेवं सुखो-
 चितम् । पुत्रयोर्भोजनं संयोज्य कृष्ण धर्ममवाप्स्यसि ॥ १८ ॥ यथा

तुम्हारा सुख चन्द्रमाकी समान कान्तिमान् है परन्तु हे ममो! वह
 तुम्हारे रूपको भी नहीं जानती ॥ १२ ॥ हे तात ! यदि देवकी
 तुमको उत्पन्न करके भी सन्ताप पावे तो उसके सन्तान होने
 का क्या फल हुआ, इससे तो अपुत्र होना ही अच्छा ॥१३॥ पुत्र-
 रहित नारियोंको तो एक (पुत्र न होनेका ही) शोक होता है,
 परन्तु पुत्रवती स्त्री यदि पुत्रके अफल होने पर सन्ताप पावे,
 तो सन्तानको भिक्कार है ॥ १४ ॥ परन्तु जिसके तुमसा इन्द्र
 की समान पुत्र हो, कि-जिसनेसे गुण और उर्ध्व नहीं मिलते
 और जो दूसरोंको भी अभय देते हैं, उनकी माता देवकीका शोक
 करना उचित नहीं है ॥ १५ ॥ तुम्हारे माता पिता वृद्ध हो गए हैं
 और वह दूसरेके भृत्य बन रहे हैं और तुम्हारे कारण अशुभमुद्धि
 कंस उनका सर्वदा निरस्कार करता रहा है ॥ १६ ॥ अतः
 पृथ्वीकी समान तुम्हारी धातमारो धारण करने वाली देवकीको
 यदि तुम माननीय समझते होओ तो तुम्हें उस शोकजलमें
 डूबती हुईका उद्धार करना चाहिये ॥ १७ ॥ और हे कृष्ण !
 तुम पुत्रको मिय सपझने चाले, सुख भोगने योग्य अपने वृद्ध
 पितासे यदि पुत्रभावसे मिलोगे तो तुमको धर्म होगा ॥ १८ ॥

नागः सुदुर्बलो दमितो यमुनाहरे । विमूलः स कृतः शैलो यथा
वै भूमरस्त्वया ॥ १६ ॥ दर्पोत्सिक्तश्च नलवानरिष्टो विनिपातितः ।
परमाणुहरः केशी दुष्टात्मा विनिपातितः ॥ २० ॥ एतेनैव मय-
त्सेन वृद्धानुद्वृष्टस्य दुःस्वित्तौ । यथा धर्ममवाप्नोपि तत्कृष्ण
परिचिन्त्यताम् ॥ २१ ॥ निर्भर्त्स्यमानो यैर्दृष्टः पिता ते कंस-
संसदि । ते सर्वे चक्रुरश्रूणिनेत्रैर्दुग्धान्विता भृशम् ॥ २२ ॥ गर्भा-
वर्कनादीनि दुःखानि सुग्रहून्यपिमाता ते देवकी कृष्ण कंसस्य
सहतेज्जशा ॥ २३ ॥ मातापितृभ्यां सर्वेण जातेन तनयेन वै ।
ऋणं वै प्रतिवर्तव्यं यथा योगमुदाहृतम् ॥ २४ ॥ एवं ते कुर्वतः
कृष्ण मातापिनोरनुग्रहम् । परित्यजेतां तौ शोकं स्याच्च धर्म-
स्तवानघः ॥ २५ ॥ वीशम्पायन उवाच । कृष्णः सुविदितार्थो

तुमने जिस प्रकार दुर्दमनीय सर्पको यमुनाहृदमें परास्त किया था
और जिस प्रकार तुमने पर्वतको विमूल कर दिया (उठा लिया)
था ॥ १६ ॥ और जैसे तुमने दर्पमें भरे हुए बलवान् अरिष्टको
गिरा दिया था और जैसे तुमने दूसरेके माणोंका हरण करने
वाले दुष्टात्मा केशीको समाप्त कर दिया है ॥ १० ॥ ऐसे ही
प्रयत्नसे उन दोनों वृद्धोंको जिस प्रकार तुम दुःखसे छुड़ा कर
धर्म सम्पादन कर सको हे कृष्ण ! उसका विचार करो ॥ २१ ॥
जिन्होंने कंसको तुम्हारे पितासे डाटते हुए देखा था, वे सब
गनुष्य परम दुःखी हुए थे और उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये
थे ॥ २२ ॥ हे कृष्ण ! तुम्हारी माता देवकीने परवश होनेके
कारण अपने बालकोंकी हत्या आदि बहुतसे दुःख सहे थे २३
माना पितासे उत्पन्न हुए पुत्रसे शक्तिके अनुसार माता पिताका
ऋण चुकाना चाहिये ॥ २४ ॥ हे कृष्ण ! यदि तुम ऐसा करके
माता पिता पर अनुग्रह करोगे, तो वे शोक करना छोड़ देंगे
और हे निष्पाप ! तुम्हें धर्म होगा ॥ २५ ॥ वीशम्पायनजीने

धौ तमाहामितविक्रमम्वाढमित्येष तेजस्वी न च क्रोधवशं गतः १६
 ते च गोपाः समागमः नन्दगोपपुरोगमाः । अक्रूरवचनं श्रुत्वा
 चेलुः कंसस्य शासनात् ॥ २७ ॥ गमनाय च ते सज्जा बभूवु
 र्व्रजवासिनः । सज्जं चोपायनं कृत्वा गोपवृद्धाः प्रतस्थिरे २८
 करं चानडुहःसर्पिर्महिषारचौपनायनान् । यथा सारं यथा यूथमुपा-
 नीय पयोघ्नम् ॥ २९ ॥ तं सज्जयिन्वा कंसस्य करं चोपाय
 नानि च । ते सर्वे गोपपतयो गमनयोपतस्थिरे ३० अक्रूरस्य कथा
 मिश्रच सह कृष्णेन जाग्रतः । रौहिण्योपतृतीयस्य सा निशा
 व्यत्यवर्तत ॥ ३१ ॥ ततः प्रभाते विमले पक्षिव्याहारसंकुले ।
 नैशाकरे रश्मिजाले क्षणदानयसंहते ॥ ३२ ॥ नमस्वरूपसंस्तीर्णे
 पर्यस्ते ज्योतिषां गणे । मत्पूपपवनासारैः क्लेदिते धरणीतले ३३

कहा, कि-कृष्णको तो सब बातें भली भँति विदित थी अत एव
 उन्होंने अगित पराक्रमी अक्रूरसे तथास्तु कहा और वह क्रोमं
 न भरे ॥ २६ ॥ परन्तु इकट्ठे हुए नन्दगोप आदि गोप अक्रूरसे
 कंसके वचनको सुन कर विचलित होगए ॥ २७ ॥ परन्तु वे
 व्रजवासी गमन करनेके लिये सन्नद्ध होने लगे और उन्होंने भेंट
 आदिको ठीक कर जानेकी तयारी कर ली ॥ २८ ॥ उन्होंने
 सालामा खिराज बैल घी भैसे, भेंटकी वस्तुएँ दूध और घी
 आदिको यूथके और शक्तिके अनुसार ठीक किया ॥ २९ ॥ इस
 प्रकार कंसके लिये भेंट आदिकी सब सामग्रियोंको ठीक कर वे
 सब गोपगति चलनेको उठ खड़े हुए ॥ ३० ॥ अक्रूरके साथ बात
 चीत करते-रश्रीकृष्ण और तीसरे बलदेवको भी वह रात जागते-
 ही वीत गई ॥ ३१ ॥ तदनन्तर निर्मल प्रभात होगया और पत्नी
 शब्द करने लगे और चन्द्रमाकी किरणोंका जाल रात्रिके साथ
 बिलीन होगया ॥ ३२ ॥ और आकाशमें अरुण दीम्बने लगा
 और नक्षत्र अस्त होगए और प्रातःकालकी वायुके भोंकोंसे

क्षीणाकारासु तारासु सुप्तनिष्प्रतिभासु च । नैशमन्तर्दधे रूप-
मुद्रञ्छति दिवाकरे ३४ ॥ शीतांशुःशान्तकिरणो निष्पभः सम-
पद्यत । एको नाशयते रूपमेको वर्धयते वपुः ॥ ३५ ॥ गोभिः सम-
वक्षीर्णासु व्रजनिर्घाणभूमिषु । मन्यनावर्तपूर्णेणु गर्गरेषु नदत्सु
च ॥ ३६ ॥ दामभिर्दम्यमानेषु वत्सेषु तरुणेषु च । गोपैरापूर्व-
माणसु घोपरथ्यासु सर्वशः ॥ ३७ ॥ तत्रैव गुरुकं भाण्डं
शक्त्यारोपितं बहु । स्वरिताः पृष्ठतः कृन्वा जग्मुः स्पन्दनवाहनाः
कृष्णोऽथ रोहिण्येष्व स चैवामितदन्तिणः । त्रयो रथगता जग्मु-
स्त्रिलोरुपतयो यथा ॥ ३८ ॥ अथाह कृष्णमक्रूरो यमुनातीर-
माश्रितः । स्पन्दनं चात्र रत्नस्व यत्रं च कुरु वाजिपु४० ह्येभ्यो

पृथिवी गीलीसी होगई ॥ ३३ ॥ इसी समय सूर्यके निकलने पर
तारोंका प्रकाश क्षीण होगया और वह सोए हुएकी समान
निष्पभ होगए तब रात्रिका रूप विलीन होगया ३४ और चन्द्रमाकी
किरणें शान्त पड़ गईं और वह प्रभा रहित होगया एकने अपने
रूपका नाश कर लिया और दूसरा अपने शरीरको बढ़ाने लगा ३५
व्रजकी निर्घाणभूमियें गौओंसे भरने लगीं, और रई चलानेसे
उत्पन्न हुए आवर्त (दहीके भ्रमर) से षट्कियें घर घर करने
लगीं ॥ ३६ ॥ और गोप रस्सियोंको लेकर नटियोंको सभाने
लगे, इस प्रकार सब गलियें मर गईं ॥ ३७ ॥ तब शक्तों पर
बड़ा भारी सामान लादा गया फिर गोप रथोंपर सवार हो
(व्रजको) पीठ पीछे कर कुर्नीसे चलने लगे ॥ ३८ ॥ इस
समय कृष्ण वज्रराग और तीसरे अमित दन्तिणादेने वाले
अक्रूर ये तीनों तीनों लोकोंके स्वामियोंकी समान रथ पर सवार
हो चल रहे थे ॥ ३९ ॥ इननेयें ही यमुनाके तट पर पहुँच कर
अक्रूरने श्रीकृष्णसे कहा, कि-तुम जरा घोड़ोंको रोक कर रथकी
देख भाल करते रहे ॥ ४० ॥ तुम घोड़ोंको जोंका दाना देदेना

यत्नसं दत्त्वा ह्यभाण्डे रथे तथा । प्रगाढं यत्नमास्थाय क्षणं तात
 मतीक्ष्यताम् ॥ ४१ ॥ यमुनाया हृदे ह्यस्मिस्तोष्यामि भुजगेश्व-
 रम् । दिव्यैर्भागवतैर्मन्त्रैः सर्वलोकमर्भुयतः ॥ ४२ ॥ गुह्यं भाग-
 वतं देवं सर्वलोकस्य भावनम् । श्रीमत्स्वस्तिकम्भूतानं प्रणमिष्यामि
 भोगिनम् । सहस्रशिरसं देवमनन्तं नीलवाससम् ॥ ४३ ॥ धर्म-
 देवस्य तस्माद्यद्यद्विषं प्रभविष्यति । सर्वं तदमृतप्रख्यमशिष्या-
 म्यमरो यथा ॥ ४४ ॥ स्वस्तिकायतनं दृष्ट्वा द्विजिह्वं श्रीविभूषि-
 तम् । समाजस्तत्र सर्पाणां शान्त्यर्थं चै भविष्यति ॥ ४५ ॥
 आस्तां मां समुदीक्षतां भवंतां संगतावुभौ । निष्कृष्टो भुजगोद्रस्य
 यावदस्मि हृदोत्तमात् ॥ ४६ ॥ तमाह कृष्णः संहृष्टो गच्छ धर्मिष्ठ

श्रीर घोड़ोंके आभूषण और रथकी क्षण भरतक परम यत्नसे
 देख भाल रखना ॥ ४१ ॥ हे तात ! तब तक मैं यमुनाजीके
 हृदमें दिव्य भागवत मन्त्रोंसे अनन्त नामक भुजगेश्वर शेषजीका
 पूजन कर आऊँ, क्योंकि-वह सब लोकोंके स्वामी हैं ॥ ४२ ॥
 वह गुह्य हैं, भागवत देव हैं, सब लोक उनका ध्यान करते हैं,
 उनका गस्तिष्क स्वस्तिक चिन्हसे सुशोभित है, उनके सहस्र फन
 हैं और वह अनन्त नीला वस्त्र धारण करते हैं मैं ऐसे देवको
 प्रणाम करूँगा ॥ ४३ ॥ उनका जो विष होगा उसको मैं उन
 धर्मके अधिष्ठात्री देवताके प्रभावसे अमृतको जैसे देवता पान
 करते हैं तैसे पीजाऊँगा ॥ ४४ ॥ स्वस्तिकायतन (स्वस्तिकके
 निवासस्थान) उन लक्ष्मीसम्पन्न सर्पको देखकर सर्पोंका समाज
 तहाँ शान्ति करनेके लिये उपस्थित रहा करता है ॥ ४५ ॥ जब
 तक मैं सर्पोंमें उत्तम शेषजीके हृदमेंसे बाहर निकलूँ तब तक
 तुम दोनों परुषित होकर मेरी बाट देखते रहना ॥ ४६ ॥ तब
 श्रीकृष्णने अक्रूरसे कहा कहा, कि-हे धर्मिष्ठ ! तुम शीघ्रनासे
 जाओ, देर न करना क्योंकि-तुम्हारे बिना हमसे यहाँ बैठा न

मां चिरम् । आवां खलु न शक्तौ स्वस्त्वया हीनावुपासितुम् ४७
स हरे यमुनायास्तु गणज्जागितदक्षिणः । रसातले स ददृशे
नागलोकमिमं यथा ॥ ४८ ॥ तस्य मध्ये सहस्रास्यं हेमतालोच्छ्रि-
तध्वजम् । लांगलासक्तहस्ताग्रं मुसलोपाश्रितोदरम् ॥ ४९ ॥
असिनांवरसंबीतं पादुरं पादुरासनम् । कुंडलैकधरं मत्तं सुसंपुं-
हेक्षणम् ॥ ५० ॥ भोगोत्करासते शुभ्रे स्वेने देहेन कल्पिते ।
स्वासीनं स्वस्तिकाभ्यां च वराहाभ्यां महीधरम् ॥ ५१ ॥ किंचित्
सव्यापवृत्तेन मौलिना हेमचूलिना । जातरूपमयैः पद्ममालया-
च्छन्नवत्तसम् ॥ ५२ ॥ रक्तचन्दनदिग्भांगं दीर्घबाहुपरिदमम् ।
पद्मनाभसिताभ्राभं भाभिर्बलिततेजसम् ॥ ५३ ॥ ददर्श भोगिनां

जावेगा ॥ ४७ ॥ तब दानपति अक्रूरने यमुनाजीके हृदयमें गोता
लगाया तो उन्होंने रसातलमें नागलोकको इस (भूतल) की
समान देखा ॥ ४८ ॥ उसके मध्यमें उन्होंने सहस्र मुख वाले
और सुवर्णके तालकी उठी हुई ध्वजा वाले लांगल पर अंगुलियों
रखे हुए और मूसल पर पेट टेकते हुए (शोपजीको देखा) ४९
वे नीला वस्त्र पहन रहे थे और स्वयं पाण्डु (श्वेत) थे और
पाण्डुर वर्णके आसन पर विराजमान थे, उत्तम कुण्डलोंको
धारण कर रहे थे, उनके नेत्र कमलकी समान थे और वे
(योगनिद्रामें) शयन कर रहे थे ॥ ५० ॥ और वह अपने
देहसे कल्पित शुभ्र सर्पासन पर श्रेष्ठ स्वस्तिकोंको धारण कर
विराजमान थे ॥ ५१ ॥ उनका सुवर्णकी चूलों वाला मस्तक
दक्षिणकी ओर झुक रहा था और उनका वस्त्रःस्थल चाँदीके
बने कमलोंकी मालासे ढक रहा था ॥ ५२ ॥ उनका शरीर रक्त-
चन्दनसे चर्चित होरहा था और उनकी भुजाएँ लम्बी थीं, और
वह अरिदमन पद्मनाभकी श्वेत आभावाले थे और किरणोंसे
उनका तेज दिग रहा था ॥ ५३ ॥ ऐसे सर्गोंके स्वाभी समुद्रके

नाथं - स्थितमेकार्णवेश्वरम् । पूज्यमानं द्विजिह्वैर्वासुकिप्रमुखैः
 प्रभुम् ॥५४॥ कम्बलाश्वतरौ नागौ तौ चामरकरावुभौ । अवीज-
 येर्ता तं देवं धर्मासनगतं प्रभुम् ॥ ५५ ॥ तस्योभ्याशगतो भाति
 वासुकिः पन्नगेश्वरः । वृतोऽन्यैः सचिनीः सर्वे कर्कोटकपुरःसरैः
 तं घटैः काञ्चनैर्दिव्यैः पंकजच्छन्नमस्तकैः । राजानं स्नापया-
 मासुः स्नातमेकार्णवाम्बुभिः ॥ ५७ ॥ तस्योत्संगे घनश्यामं
 श्रीवत्साच्छादितोरसम् । पीताम्बरधरं विष्णुं सूपविष्टं ददर्श
 ह ॥ ५८ ॥ अपरं चैव सोमेन तुज्यसंहननं प्रभुम् । संकर्षण-

एकाधिपति प्रभु अनन्तकी सर्पराज वासुकि आदि पूजा कर रहे
 थे, यह बात अक्रूरने देखी ॥ ५४ ॥ उस समय धर्मासन पर
 विराजमान शेष देवकी कम्बल और अश्वतर नाम वाले दो
 नाग चामर लेकर पवन कर रहे थे ॥ ५५ ॥ उनके समीप ही
 सर्पराज वासुकि अपने कर्कोटक आदि मन्त्रियोंसे घिर कर बैठा
 हुआ शोभा पारहा था ॥ ५६ ॥ समुद्रके जलसे स्नात उन राजा
 (शेषजी) को कमलके पालोंसे ढके हुए मुख वाले सुवर्णके
 कलशोंमें भरे हुए दिव्य जलसे सब सर्प स्नान कराने लगे ५७
 (अक्रूरने) देखा, कि-उनकी गोदीमें मेघकी समान श्याम वर्ण
 वाले और श्रीवत्ससे आच्छादित वक्षःस्थल वाले पीताम्बरधारी
 विष्णु विराजमान है (श्रुतिमें कहा है, कि-सप्त सप्तशाकिन
 एकमेकाशता ददुः । यमुनायामधिश्रुतमुद्राघो गव्यं मृजे निराघो
 अश्व्यं मृजे" यह पारुतमूक्त है 'प्रक्रूर अघर्मर्षणके समय भग-
 वान्को देख कर उस (अघर्मर्षण) के देवता मरुतकी स्तुति
 करते हैं, कि-उडञ्चास हो सकने वाले शक्तिमद वायु प्रत्येकको
 सैकड़ों ऐश्वर्य देते हैं, क्यों कि-इनकी अहंकार ही परमसंपत्ति
 है, मैंने इनके धन सूत्रान्तर्पामी रूपको यमुनाजीके मध्यमें देखा
 है और उसी धनको मैंने ऊपर सूर्यकी रश्मियोंमें देखा है, उनही

मिवासीनं तं दिव्यं विष्टरं विना ॥ ५६ ॥ स कृष्णं तत्र सहसा
 व्याहर्तुमुपचक्रमे तस्य संस्तम्भयामास वाचयं कृष्णः स्वतेजसा १०
 सोऽनुभूय भुजङ्गानां तं भागवतमव्ययम् । उदनिष्टत्पुनस्तोया-
 द्विस्मतोमितदक्षिणः ॥ ६१ ॥ स तौ रथस्थावासीनौ तत्रैव बल-
 केशवौ । निरीक्ष्यमाणावन्वोन्मं ददर्शाद्भुजरूपिणौ ॥ ६२ ॥ अथा-
 मञ्जत्पुनस्तत्र तदाऽक्रूरः कुतूहलात् । इज्यते यत्र देवोऽसौ नील-
 वासाः सिताननः ॥ ६३ ॥ तथैवासीनमुत्संगे सहस्रास्त्रधरस्य
 वै । ददर्श कृष्णमक्रूरः पूज्यमानं तदा प्रभुम् ॥ ६४ ॥ भूयश्च
 सहस्रोत्थाय तन्मन्त्रं मनसा जपन् । रथं तेनैव मार्गेण जगामा-
 मितदक्षिणः । ॥ ६५ ॥ तमाह केशवो हृष्टः स्थितमक्रूरमागतम् ।

देवको मैं अश्व वाले रथमें बैठे हुआ देखता हूँ ५६ तहाँ उन्होंने
 सोमकी समान शरीर वाले दूसरे प्रभु संरूपणको श्रीकृष्णके
 साथ भूमि पर बैठे देखा, तब तो वह सहसा श्रीकृष्णसे बातचीत
 करना चाहने लगे, कि—श्रीकृष्णने अपने तेजसे उनकी घाणीको
 स्तंभित कर दिया ॥ ५६ ॥ ६० ॥ अमित दक्षिणा देने वाले अक्रूर
 भुजंगोंमें उन अच्युत भागवतका अनुभव करके विस्मित हो गए
 और जलमेंसे ऊपरको उठे ॥ ६१ ॥ तहाँ उसने अद्भुत रूप वाले
 बलराम और केशवको रथमें बैठे हुए आर परस्पर देखते हुए
 देखा ॥ ६२ ॥ तब तो जहाँ पर नीलवस्त्रधारी श्वेत मुख वाले
 शेषदेवकी पूजा होरही थी (तहाँ पर जानेके लिये)
 कुतूहलके कारण जलमें गोता लगाया ॥ ६३ ॥ फिर उन्होंने इसी
 प्रकार सहस्र मुख धारण करने वाले शेषजीकी गोदीमें विराज-
 मान प्रभु श्रीकृष्णकी पूजा होते हुए देखा ॥ ६४ ॥ फिर वह
 उसी मंत्रका मनमें गप करते हुए सहसा जलमेंसे निकल आये
 और रथमें बैठ कर वह अमित दक्षिणा देने वाले अक्रूर मार्गमें
 को चल दिये ॥ ६५ ॥ जब अक्रूरजी आकर बैठ गए तब

कीदृशं नागलोकस्य वृत्तं भागवते हृदे ॥ ६६ ॥ चिरं च भवता
 कालो व्याक्षेपेण विलम्बितः । मन्ये दृष्टं त्वयाऽऽश्चर्यं हृदयं ते
 यथाचलम् ॥ ६७ ॥ प्रत्युवाच स तं कृष्णमाश्चर्यं भवता विना ।
 किं भविष्यति लोकेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥ ६८ ॥ तत्राश्चर्यं
 मया दृष्टं कृष्ण यद्भुवि दुर्लभम् । तदिहापि यथा तत्र पश्यामि
 चरगामि च ॥ ६९ ॥ संगतरचापि लोकानामाश्चर्येणैव रूपिणा ।
 अतः परतरं कृष्ण नाश्चर्यं द्रष्टुमुत्सहे ॥ ७० ॥ तदागच्छ गमि-
 ष्यामः कंसराजपुरीं प्रभो । यावन्गास्तं व्रजत्येष तमोहर्ता दिवा-
 करः ॥ ७१ ॥

इति श्रीमद्भागवते ग्विलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि अक्रूरकृत-
 नागलोककथनं नाम पटत्रिंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

नैशम्पायन उवाच । ते तु युक्त्वा रथवर सर्व एवामितौ-

श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर उनसे बूझने लगे, नागलोकका क्या
 वृत्तान्त है, तुमने भागवत हृदयमें व्याक्षेपमें बहुतसा समय चिता
 दिया, तुम्हारा हृदय अचल है, इससे प्रतीत होता है, कि तुमने
 कोई आश्चर्यजनक घटना देखी है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ तब उन्होंने श्रीकृष्ण
 से कहा, कि-चराचर लोकोर्म आपके अतिरिक्त और क्या
 आश्चर्य होसकता है ॥ ६८ ॥ हे कृष्ण ! तहाँ मैंने आश्चर्य देखा
 था, वैसा आश्चर्य यहाँ दीखना कठिन है, परन्तु मैंने जैसा
 आश्चर्य तहाँ देखा था, यहाँ भी उसको ही देख रहा हूँ ६९ में तहाँ
 यहाँ पर लोकोंके मूर्तिमान् आश्चर्योंके साथ बेटा हूँ, हे कृष्ण !
 इससे अधिक आश्चर्योंको देखनेका मैं उत्साह नहीं रखता ७०
 इस लिये चलिये प्रभो ! जब तक अंधकार नाशक सूर्य अस्त न
 हो उससे पहिले ही कंसराजकी पुरीमें पहुँच जावें ॥ ७१ ॥
 छवीसवाँ अध्याय समाप्त २६

नैशम्पायनजीने कहा, कि तब वे सब भगवततेजस्वी रथको

जसः । कृष्णेन सहिताः प्रायंस्तथा संकर्षणेन च ॥ १ ॥ प्राप्ते-
दुस्ते पुरीं रम्यां मथुरां कंसपालिताम् । विविशुस्ते पुरीं रम्यां
काले रक्तदिवाकरे ॥ २ ॥ तौ तु स्वभवनं वीरौ कृष्णसंकर्षणा-
बुधौ । मवेशितौ बुद्धिमता ह्यक्रूरेणार्कवर्चसौ ॥ ३ ॥ तावाह
वरवर्णाभौ भीतो दानपतिस्तदा । त्यक्तव्या तात गमने वसुदेव-
गृहे स्पृहा ॥ ४ ॥ युवयोर्हि कृते वृद्धः कंसेन स निरस्यते ।
भत्स्यते च दिवारात्रौ नेह स्थातव्यमित्यपि ॥ ५ ॥ तद्युवाभ्यां
हि कर्तव्यं पित्रर्थं सुखमुत्तमम् । यथा सुखमवाप्नोति तद्वै कार्यं
हितान्वितम् ॥ ६ ॥ तमुवाच ततः कृष्णो यास्यावात्रामर्कितौ ।
प्रोज्ञन्तौ मथुरां वीर राजमार्गं च धार्मिकं । तस्यैव तु गृहं साधो
गच्छावो यदि मन्यसे ॥ ७ ॥ वीशम्पायन उवाच । (अक्रूरोऽपि

जोत कर श्रीकृष्ण और बलरामको लेकर चलने लगे १ और
कंसकी पालित मथुरापुरीके पास पहुँच गए और रमणीय
मथुरापुरीमें सूर्यके रक्त होनेके समय घुसे २ उस समय बुद्धिमान्
अक्रूर ने सूर्यकी समान कान्ति वाले उन दोनों वीर श्रीकृष्ण
और संकर्षणको अपने घरमें ही उतार लिया ३ उस समय दान-
पति अक्रूरने श्रेष्ठ वर्ण वाले उनसे डर कर कहा कि-हे तात! इस
समय तुम वसुदेवके घर जानेकी स्पृहा न करना ४ तुम्हारे ही लिये
इन वृद्धको वह रात दिन धमकाता रहता है और अपमान करता
रहता है अतः तुम तहाँ न ठहरना ५ अतएव तुम अपने पिताको
सुख देने वाला उत्तम कार्य करना, मनुष्यको जिससे सुख पहुँचे
वही हितकर कार्य होता है ६ तब श्रीकृष्णने अक्रूरसे कहा, कि-
हे धार्मिक ! हे वीर ! हम अर्कितरूपसे मथुराको और राजमार्ग
को देखते हुए उस कंसके घरको जावेंगे, हे साधो ! क्या आप
इसको ठीक समझते हैं ७ वीशम्पायनजीने कहा, कि-(तदनन्तर
अक्रूर भी मन ही मनमें अच्युत श्रीकृष्णको प्रणाम कर मनमें

नमस्कृत्य मनसा कृष्णमव्ययम् । जगाम कंसपार्श्वं तु महष्टेना-
 तरात्मना ॥१॥ अनुशिष्टी च तौ वीरौ प्रस्थितौ प्रेक्षकाबुधौ ।
 आलानाभ्यागिवोन्मुक्तौ कुञ्जरौ युद्धकान्तिणौ ॥ ८ ॥ तौ तु
 मार्गगतं दृष्ट्वा रजकं रंगकारकम् । अयाचेतां ततस्तौ तु वासांसि
 रुचिराणि वै ॥ ९ ॥ रजकः स तु तौ प्राह युवां कस्य वनेचरौ ।
 राजवासांसि यौ मौढ्याद्याचेतां निर्भयाबुधौ ॥१०॥ अहं कंसस्य
 वासांसि नानादेशोद्भवानि वै । कामरागाणि शतशो रञ्जयामि
 विशेषतः ॥ ११ ॥ युवां कस्य वने जातौ मृगैः सह विवर्धितौ ।
 जातरागाविदं दृष्ट्वा रक्तपाच्छादनं बहु ॥१२॥ अहो वां जीवितं
 त्यक्तं यौ भवन्ताविहागतौ । मूर्खौ प्राकृतविज्ञानौ वासो याचितुं
 पिच्छथः ॥ १३ ॥ तस्मै चुक्रोप वै कृष्णो रजकागाल्पमेधसे ।
 मात्मारिष्टाय मूर्खाय सृजते वाङ्मयं विपम् ॥ १४ ॥ तलेनाश-
 पसन्न होते हुए कंसके पास गए) तब वे दोनों वीर अक्रूरसे
 अनुज्ञा लेकर गजबंधनसे छूटे हुए युद्धाभिलाषी दो हाथियोंकी
 समान देखते हुए चलने लगे ८ उन्होंने मार्गमें जाते हुए रंग
 चढ़ाने वाले एक धोवीको देख कर उससे मनोहर वस्त्र माँगे ९
 रजकने उनसे कहा, कि-अरे! तुम किसके वनेचर (दोर) हो
 जो मूर्खतमसे निर्भय होकर राजवस्त्रोंको माँग रहे हो १० मैं तो
 अधिकतर नाना देशोंमें उत्पन्न कंसके ही सहस्रों वस्त्रोंको इच्छा-
 नुसार रँगसे रँगता (बधोता) रहता हूँ ११ अरे तुम किसके
 यहाँ उत्पन्न हुए हो, तुम तो वनमें मृगोंके साथ बड़े हुए प्रतीत
 होते हो, तुम्हें इन बहुतसे रंगे हुए वस्त्रोंको देख कर इनके ऊपर
 प्रेम उत्पन्न होगया ! १२ अरे ! तुम मूर्ख हो और तुम्हारी बुद्धि
 गँवारोंकीसी है, तुम यहाँ आगए अतः तुम अपने जीवनको नष्ट
 हुआ समझो १३ यह सृज कर उस अल्पबुद्धि रजक पर श्रीकृष्ण
 कुणित होगए, उस मूर्खको मरणकाल समीप आगया था अत

निकल्पेन स तं मूर्धन्यताडयत् । स गतासुः पपातोर्ध्वा रजको
व्यस्तमस्तकः ॥ १५ ॥ तं हतं परिद्वेवन्त्यो भार्यास्तस्य विचु-
क्रुधुः । त्वरितं मुक्तकेश्यश्च जग्मुः कंसनिवेशनम् ॥ १६ ॥
तावप्युधौ मुवसन्तौ जग्मतुर्माञ्जिकारणात् । वीथीं माल्यापणानां
वै गन्धाघ्नानौ द्विपावित्र ॥ १७ ॥ गुणको नाम तत्रासीन्माञ्ज-
वृचिः प्रियम्बदः । प्रभूतमाल्यापणवाञ्छलक्ष्मीवान् प्रियदर्शनः १८
तं कृष्णः श्लक्ष्णया वाचा माञ्ज्यार्थमभिसृष्टया । देहीत्युवाच
तरुणाले मालाकारमकातरम् ॥ १९ ॥ ताभ्यां प्रीतो ददौ माल्यं
प्रभूतं माल्यजीवनः । भवतोः स्वमिदं चेति प्रोवाच प्रियदर्शनो २०
प्रीतः सुमनसा कृष्णो गुणकाय वरं ददौ । श्रीस्त्वां मत्संभवा

एव वह वचनरूपी विष वरसा रहा था १४ इस लिये श्रीकृष्ण
ने अपने हाथसे उसके मस्तक पर चपेटा जमाया कि-तुरत ही
वह मर गया और उसका धड़ पृथ्वीमें गिर पड़ा १५ उसकी
भार्याएँ उस मरे हुएका विलाप कर रोने लगीं और वह अपने
केशोंको खोल शीघ्रतासे कंसके घरकी ओर चलीं १६ सुन्दर
वस्त्र धारण करनेके अनन्तर गंधका सूँघने वाले हाथियोंकी
संगान वे दोनों मालाके कारण जहाँ पर दूकानोंमें माला विकती
थी उस गलीमें पहुँचे १७ तहाँ पर एक गुणक नाम वाला माला
बेच कर आजीविका चलाने वाला रहता था वह प्रियम्बद था,
उसकी मालाओंकी बहुतसी दूकानें थीं वह श्रीसमृद्ध था और
उसरो देख कर प्रेम उत्पन्न होजाता था १८ तब श्रीकृष्णने
माला लेनेके लिये मधुरवाणीमें अकानर मालाकारसे कहा कि-
“माला दो” १९ तब माला पर आजीविका चलाने वाले उस
माजीने मसन्न होकर उनको मालाएँ दीं और उन प्रियदर्शनोंसे
कहा, कि-“मैं आपका हूँ” २० तब श्रीकृष्णने मसन्न होकर
गुणकको वर दिया, कि-हे सौम्य ! मेरे मसन्न करनेके कारण

सौम्य धर्मायैरभिपत्स्यते ॥ २१ ॥ स लब्ध्वा वरगव्यग्रो मान्य-
 वृत्तिरधोमुखः । कृष्णस्य पतितो मूर्ध्ना प्रतिजग्राह तं वरम् २२
 यत्ताविपाविति तदा स मेने गाल्यजीवकः । स भृशं भयसंचिन्तो
 नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ २३ ॥ वसुदेवसुतां तां च राजमार्गगताभुर्भौ ।
 कुन्दा ददर्शतुभूयः सानुलेपनभाजनाम् ॥ २४ ॥ तामाह कृष्णः
 कुञ्जेति कस्येदमनुलेपनम् । नयस्वम्बुजपत्राक्षि क्षिप्रमाह्वातु-
 मर्हसि ॥ २५ ॥ सस्मिता सम्मुखी भूत्वा प्रत्युवाचाम्बुजेक्षणम् ।
 कृष्णं जलदगम्भीरं विद्युत्कुटिलगामिनी ॥ २६ ॥ राज्ञः स्नान
 गृहं यामि तद्गृहाणानुलेपनम् । स्थितास्म्यागच्छ भद्रन्ते हृद-
 यस्यासि मे प्रिय ॥ २७ ॥ कुतश्चागम्यते सौम्य यन्मां त्वं नाव-
 बुध्यसे । महाराजस्य दयितां नियुक्तामनुलेपनैः ॥ २८ ॥ ताम्बु-

तुभे लक्ष्मीके श्रेय मिलेंगे २१ वरको पाने पर गुणकने अग्रग्न हो
 नीचेको मुख कर श्रीकृष्णको मस्तक झुका कर उस वरको ग्रहण
 कर लिया २२ स मालाजीवीने समझा या कि-यह यज्ञ है फिर वह
 कंसके भयसे मूढ़ होजानेके कारण यह न सोच सका, कि अब
 मैं क्या उत्तर दूँ ॥ २३ ॥ इतनेमें ही मार्गमें जाते हुए उन वसुदेवके
 पुत्रोंने अनुलेपन (चन्दन) का पात्र लेकर जानी हुई कुन्दाको
 देखा ॥ २४ ॥ श्रीकृष्णने उससे कहा, कि-यह चन्दन किसके
 लिये लेना रही है, हे कमलनेत्रे ! इसको शीघ्रतासे कह ॥ २५ ॥
 तब उस विजलीकी समान कुटिलतासे चलने वालीने कमलकी
 समान नेत्रों वाले और मेघकी समान गम्भीर श्रीकृष्णसे मुस्कुरा
 कर कहा ॥ २६ ॥ मैं राजाके स्नानगृहको जा रही हूँ आप इस
 चन्दनको लगाइये, आप मेरे हृदयके प्यारे हैं आइये ! मैं खड़ी
 हुई हूँ ॥ २७ ॥ “मैं महाराजकी प्रिय हूँ और चन्दन आदि
 लगानेके लिये नियुक्त हूँ” हे सौम्य ! तुम कहाँसे आरहे हो, जो
 मुझे नहीं जानते ॥ २८ ॥ श्रीकृष्णने खड़ी होकर हँसती हुई

वाच हसन्तीं तु कृष्णः कुब्जामवस्थिताम् । आवयोर्गात्रसदृशं
दीयनाममुलेपनम् ॥ २६ ॥ वयं हि देशातिथयो मन्त्राः प्राप्ता
वरानने । द्रष्टुं धनुर्महद्विष्यं राष्ट्रे चैव महर्षिमत् ॥ ३० ॥ प्रत्यु-
वाचाथ सा कृष्णं प्रियोऽसि मम दर्शने । राजार्हमिदमव्यग्रं तद्
गृहाणानुलेपनम् । ३१ ॥ ताजुभावजुलिप्तांगौ चारुगात्रौ विरे-
जतुः । तीर्थगौ पंकदिग्भांगौ यमुनायां यथा वृषौ ॥ ३२ ॥ तां
च कुब्जां स्थगोर्मध्ये द्वयंशुलेनाग्रापाणिना । शनैः सम्पीडयामास
कृष्णो लीलाविधानवित् ॥ ३३ ॥ सा च मग्नं स्थगुं मत्वा
स्वायतांगी शुचिस्मिता । जहासोच्चैः स्तनतटा ऋजुष्टिर्लता
यथा ॥ ३४ ॥ प्रणयाच्चापि कृष्णं सा वभापे मत्तकाशिनी । क
यास्यसि मया रुद्रः कांत निष्ठु गृहाण माम् ॥ ३५ ॥ तां जात-

कुब्जासे कहा, कि-“तू हम दोनोंके अनुरूप चन्दन दे ॥२६॥
हे वरानने ! हम मन्त्र हैं, इस देशमें अतिधिरूपमें आये हैं, इस
राज्यमें समृद्धिसम्पन्न बड़ा भारी दिव्य धनुष है उसको हम
देखने जा रहे हैं ॥ ३० ॥ तब उसने श्रीकृष्णसे कहा, कि-
तुम्हारा दर्शन मुझे मिय लगता है, यह चन्दन राजाओंके योग्य
है इसको आप अव्यग्न होकर ग्रहण करिये ॥ ३१ ॥ चन्दन
लगाने पर वे चन्दनचर्चित अङ्ग वाले दोनों भाई यमुनाके जलमें
घुस कर काँपसे सने हुए वैलोकी समान शोभा पाने लगे ३२
लीलाके विधानको जानने वाले श्रीकृष्णने उसकी पीठ (कूबड़)
पर धीरेसे अगुलिये मारीं (तब उसका कूबड़ जाता रहा) ३३
जब उसने समझा, कि-मेरा कूबड़ बैठ गया और मेरा अङ्ग
ठीक होगया तब वह स्ननरूपी तटोवाली पवित्र हास्य करने लगी
उस समय वह सीधी लरुड़ी वाली लताकी समान दीखती थी ३४
उस मत्त होनेके कारण खिलने वालीने श्रीकृष्णसे प्रणय-
पूर्वक कहा, कि-मैंने तुमको रोक लिया है हे कान्त ! अब तुम

हासायन्पोन्यं सतलाज्ञेपमत्रययौ । वीक्ष्यमाणौ महसितौ कुब्जायाः
 श्रुतिविस्तरौ ॥३६॥ कृष्णस्तु कुब्जां कामार्ता सस्मितं विससर्ज
 ह । ततस्तौ कुब्जया मुक्तौ भविष्टौ राजसंसदम् ॥३७॥ तावुभौ
 व्रजसम्बृद्धौ गोपवेषविभूषितौ । गृढचेष्टाननी भूत्वा भविष्टौ नृप-
 : वेश्म तत् ॥ ३८ ॥ धनुःशालांगती तौ तु यालावपरितर्कितौ ।
 हिमवदनसम्भूतौ सिंहाविव मदोत्कटौ ॥ ३९ ॥ दिक्षन्तौ मह-
 च्च धनुरांपोगभूपितम्पमच्छतुरचती वीरावायुभागारिकं तदा४०
 भोः कंसधनुषां पाल श्रयतामावयोर्बचः । कतरचद्धनुः सौम्य
 महोऽयं यस्य वर्तते ॥ ४१ ॥ आयोगभूतं कंसस्य दर्शयस्व यदी-
 च्छसि । स तयोर्दर्शयामास तद्धनुः स्तम्भसन्निभम् ॥ ४२ ॥

कहाँको जाते हो, मुझे ग्रहण करो ॥ ३५ ॥ तब वे दोनों हँसे
 और उन्होंने एक दूसरेसे हाथ मिला कर तालिये बनाई, फिर
 उन दोनों अच्युत पुरुषोंने कुब्जाके गुणोंको सुन कर उसको देखा
 और हँस कर (चलने लगे) ॥ ३६ ॥ इस प्रकार हँस कर
 श्रीकृष्णने कामसे मत्त हुई कुब्जाको छोड़ दिया और कुब्जासे
 छूटनेके अनन्तर वे राजसभामें घुसे ॥ ३७ ॥ वे दोनों व्रजमें बड़े
 थे और गोपवेषसे विभूषित थे, वे मारंभमें अपनी चेष्टाओंकी गुप्त
 रख उस राजभवनमें घुसे ॥ ३८ ॥ हिमाचलके वनमें उत्पन्न हुए
 सिंहोंकी समान मदोत्कट वे दोनों अतिर्कित घालक धनुःशाला
 में घुस गए ॥ ३९ ॥ वे दोनों वीर प्रसिद्ध होनेसे विभूषित उस
 बड़े भारी धनुषको देखनेकी इच्छासे आयुभागारके रक्षकसे ब्रूकने
 लगे, कि-॥ ४० ॥ हे कंसके धनुषरक्षक ! तुम हम दोनोंके वचनों
 को सुनो, कि-हे सौम्य ! जिस धनुषका यह उत्सव-होरहा है,
 वह धनुष कहाँ है ॥ ४१ ॥ वह कंसकी प्रसिद्धिरूप है, यदि तुम
 को इच्छा हो तो उस धनुषको हमें दिखाओ, तब उसने उन दोनों
 को स्तंभकी समान (मोटा) धनुष दिखाया ॥ ४२ ॥ उसको

अनारोप्यमसम्भेद्यं देवैरपि सवासर्गैः । तद्गृहीत्वा तदा कृष्ण-
स्तोत्रयामास वीर्यवान् ॥ ४३ ॥ दोर्भ्यां कमलापनाक्षः महृष्टेनां-
तरात्मना । तोलयित्वा यथाकामं तद्धनुर्देत्यपूजितम् ॥ ४४ ॥
आरोपयामास तदा नागयामास चासकृत् । अनाम्यमानं कृष्णेन
प्रकर्षादुरगोपमम् ॥ ४५ ॥ द्विधाभूतमभून्मध्ये वनुरायोगभूषि-
तम् । भङ्क्त्वा तु तद्धनुःश्रेष्ठं कृष्णस्त्वरितविक्रमः । निश्चक्राम
महावेगः स च संकर्षणो युवा ॥ ४६ ॥ धनुषो भङ्गनादेन वायु-
निर्घोषकारिणा । चञ्चलान्तःपुरं सर्पं दिशश्चैव पुपूरिरे ॥ ४७ ॥
निर्गम्य त्वायुधागाराज्जग्मतुर्गोपसन्निभौ । वेगेनायुधपालस्तु
गच्छन् सम्भ्रान्तमानसः ॥ ४८ ॥ समीपं नृपतेर्गत्वा काकोच्छ्वासो-
ऽभ्यभापत । श्रूयतां मया विज्ञाप्यमारचयं धनुषो गृहे ॥ ४९ ॥

इन्द्रसहित देवता भी न चढ़ा सकृते थे, वीर्यवान् श्रीकृष्णने उस
को पकड़ कर जाँचा ॥ ४३ ॥ तदनन्तर कमलापनकी समान
नेत्री वाले श्रीकृष्णने प्रसन्न मनसे अपनी भुजाओंके द्वारा उस
दैत्यपूजित धनुषको इच्छानुसार जाँच कर उसको चढ़ा लिया
और उसको बारम्बार नमाने लगे उस सिद्धिविभूषित सर्पकी
समान धनुषको जब कृष्णने नगाया तब बीचमेंसे उसके दो
टुकड़े होगए, उस श्रेष्ठ धनुषको तोड़नेके अनन्तर श्रीकृष्ण और
वड़े वेगसे चलने वाले युवा संकर्षण ये दोनों फुर्तीसे कदम
रखते हुए (सभासे बाहर) चले गए ॥ ४४-४६ ॥ धनुषके टूटने
पर आँधी चलनेकी समान शब्द हुआ उस समय सब अन्तःपुर
क्वचलित होगया और सब दिशाएँ प्रतिध्वनित होगई ४७ वे
दोनों आयुधागारसे निकल कर गोपोंके पास पहुँच गए और
आयुधरत्नक मनमें धवड़ाता हुआ शीघ्रतासे (राजाके पास)
चला ॥ ४८ ॥ उसने राजाके पास जाकर कृष्ण (की समान
चञ्चल दृष्टि कर) सौँस छोड़ते हुए कहा, कि-मेरी मूचना सुनिये

निर्दत्तमस्मिन् काले यज्जगतः संभ्रमोपमम् । नरौ रुस्याप्यसदृशौ
 शिखाविततमूर्धगां ॥ ५० ॥ नीलपीताम्बरधरो पीतरवेतानु-
 लोपर्ना । तानतःपुरमद्वातीं प्रविष्टौ कामवेपिणौ । देवपुत्रोपमौ
 वीरौ वालाशिव हुताशनौ ॥ ५१ ॥ स्थितौ धनुर्गृहे सौम्यौ सहसा
 खादिवागतौ । मया दृष्टौ परिव्यक्तं रुचिराच्छादनसूत्रौ ॥ ५२ ॥
 तपोरेकस्तु पद्माक्षः श्यामपीताम्बरसूत्रजः । जग्राह तद्धनूरत्नं दुर्गाहं
 देवतरपि ॥ ५३ ॥ तच्च वालो महच्चारुं बलाद्यन्त्रमिवापसम् ।
 आरोपयित्वा वेगेन नामयामास लीलया ॥ ५४ ॥ आकृष्यमाणं
 तत्तेन विघ्राणं बाहुशालिना । मुष्टिदेशे विकृजित्वा द्विधाभूतम
 भक्ष्यतः ५५ ततः प्रचलिता भूमिर्नैव भाति च भास्करः । धनुषो भंग-

इस समय जगत्का प्रलय करनेकी समान धनुषपरमें एक आश्चर्य
 हुआ है, तहाँ दो गनुष्य आये थे, उनको मैं किनकी उपमा दूँ वह
 किसीकी समान नहीं थे उनके बाल चोटीकी समान लम्बे
 थे ॥ ४६ ॥ ५० ॥ वे नीला और पीला वस्त्र धारण कर रहे
 थे, वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दोनों अज्ञातभावसे
 अन्तःपुरमें घुस आये, उस समय वे दोनों देवपुत्रोंकी समान
 दीखते थे और वे दोनों बालक होने पर भी आकाशमेंसे सहसा
 आये हुए सौम्य हुताशनो (अग्नियों) की समान एकदम धनुष-
 परमें आगए थे, मैंने उनको भली भली भाँति देखा था, वे दोनों
 रुचिर वस्त्र और मालायें धारण कर रहे थे । ५१ । ५२ । उनमेंसे
 पद्मकी समान नेत्रवाले और पीली माला और वस्त्र धारण करने
 वाले एक श्याम बालकने देवताओंसे भी दुर्गाह धनूरत्नको उठा
 लिया ५३ तदनन्तर उस बालकने जैसे कोई मशीनसे उठा कर
 चढ़ा देय इस प्रकार उस लोहेके बड़े भारी धनुषको वेगपूर्वक
 चढ़ा कर लीला २ में ही उसको नमा दिया ५४ जब उस बाहुशाली
 ने उस बाणरहित धनुषको खँचा तब वह मुट्टीसे पकड़नेके

नादेन भ्रमतीव नभस्तलम् ॥ ५६ ॥ तदद्भुतं महद् दृष्ट्वा विस्मयं
परमं गतः । भयाद्भयद् शत्रुणां तदिहाख्यातुमागतः । न जानामि
महाराज कौ तावमितविक्रमौ ॥ ५७ ॥ एकः कैलाससंकाश
एकोजनगिरिप्रभः । स तु तच्चापरत्नं वै भङ्क्त्वा स्तम्भमिव
द्विपः ॥ ५८ ॥ निष्पपातानिलगतिः सानुगोऽमितविक्रमः । अग-
मत्तं द्विधा कृत्वा न जाने कोप्यसौ नृप ५९ ॥ श्रुत्वैव धनुषो
मंगं कंसो विदितविस्तरः । विसृज्यायुधपालं वै प्रविवेश गृहोत्त-
मम् ॥ ६० ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि कंसधनु-
र्भंगो नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

स्थानमें शब्द करता हुआ दो टुक हो गया ॥ ५५ ॥ उस समय
भूमि काँपने लगी और सूर्यका प्रकाश होना कम हो गया और
धनुषके टूटनेके शब्दसे आकाश घूमनेसा लगा ॥ ५६ ॥ इस
बातको देख कर मुझे बड़ा विस्मय हुआ और हे शत्रुओंको
भय देने वाले ! मैं तो डरता २ आपसे यह कहनेके लिये यहाँ
आया हूँ हे महाराज ! मैं नहीं जानता कि-वे अमित विक्रमी
कौन हैं ? ॥ ५७ ॥ उनमेंसे एक कैलासकी समान (श्वेत) था
और एककी आभा अञ्जनके काले पहाडकी समान थी, जैसे
हाथी स्तम्भको तोड़ डालता है, इसी प्रकार उस धनुषको
तोड़नेके अनन्तर वह अपार पराक्रमी वायुकी समान वेगसे
अपने भाईके साथ भाग गया, इस प्रकार वह धनुषके दो टुकड़े
कर भाग गया, हे नृपामें नहीं जानता कि-वह कौन है? ५८-५९
धनुर्भंगके समाचारको सुन कर कंसको सब वृत्तान्त प्रतीत
होगया और वह आयुधरत्नको त्याग कर अपने श्रेष्ठ घरमें
घुस गया ॥ ६० ॥ सचाईसर्वाँ अध्याय समाप्त ॥ २७ ॥

वीशम्पायन उवाच । स चिन्तयित्वा धनुषो भंगं भोजविव-
 र्धनः । वभूव निपना राजाऽचिन्तयन्भृशदुःखितः ॥ १ ॥ कथं
 बालो विगतभीरवपत्य महाबलः । प्रेक्षमाणस्तु पुरुषैर्धनुर्धक्त्वा
 विनिर्गतः ॥ २ ॥ यस्म्यर्थे दारुणं कर्म कृतं लोकविगर्हितम् ।
 पितृष्वसात्मजान् वीरान् पडेवाहं न्यपोथयम् ॥ ३ ॥ देवं पुरुष-

(पूर्व अध्यायमें इस ऋचाके अनुसार वर्णन किया है, कि-
 "पुवं वस्त्राणि पीवसा वसाथे युवोरच्छिद्रा मन्तवो ह सर्गाः"
 अर्थात् तुम बलपूर्वक (रजकको मारकर) वस्त्रोंको पहरोगे
 और तुम्हारा मान करने वाले (मालाकार कुब्जा आदि माला
 और अनुलेप आदि कर्मोंको) सिरजेंगे अतः वे अच्छिद्र हो
 जावेंगे अर्थात् कुब्जत्व नीचत्व आदि दोषोंसे हीन होजावेंगे ॥
 अब इस अध्यायमें इस आधी ऋचाके अनुसार वर्णन आवेगा,
 कि-"अवतारितमनृतानि विरव ऋतेन मित्रावरुणा सचेथे"
 अर्थात् कंसने यादव न होने पर भी यदुओं पर प्रभुत्व करनेकी
 इच्छासे अनृत मन्त्र आदि प्रवृत्त किये थे उन सबका उन दोनों
 ने तिरस्कार करदिया था, यह सब कार्य उन्होंने अपने सत्य
 यादवरूपसे प्रकट होकर ही किया था, पहिले वह गोप्यरूपसे
 आच्छादित रहते थे, वे दोनों मित्रावरुण थे अर्थात् राम कृष्ण
 मूत्रान्तर्यामी रूप थे, अब कंसका अनृतत्व (असत्यपना) हाथी
 बान्की कथामें प्रकट किया जाता है) वीशम्पायनजी कहते हैं,
 कि-भोजोंका उच्छेद करने वाला राजा कंस धनुर्भंगकी बातको
 सुन कर चिन्तामें पड़गया, वह बड़ा दुःखी हुआ और उदास
 होगया ॥ १ ॥ (वह विचारने लगा, कि) सब पुरुष देखते
 रहे, तब भी यह महाबली बालक धनुषको तोड़ कर कैसे निकल
 गया, यह बड़ा निडर है ॥ २ ॥ मैंने इसके लिये संसारमें निन्दित
 दारुण कर्म किया था, मैंने अपनी बुआके छः वीर पुत्रोंको

कारेण न शक्यमतिवर्तितुम् । नारदोक्तं च वचनं नूनं महामुप-
स्थितम् ॥ ४ ॥ एवं राजा विचिन्त्याथ निष्क्रम्य च गृहोत्त-
मात् । प्रेक्षागारं जगामाशु मञ्चानामवलोककः ॥ ५ ॥ स दृष्ट्वा
सर्वनिर्मुक्तं प्रेक्षागारं नृपोत्तमः । श्रेणीनां दृढनिर्युक्तैर्मञ्चवाटै-
र्निरन्तरम् ॥ ६ ॥ सोत्तमागारयुक्ताभिर्वलभीभिर्विभूषितम् ।
सर्वतः सारनिर्व्यूहं स्वायतं सुप्रतिष्ठितम् । उदग्राक्लिष्टसुश्लिष्टं
मञ्चारोहणमुत्तमम् ॥ ८ ॥ नृपासनपरिक्षिप्तं संचारपथसङ्कुलम् ।
ध्वन्नं तद्वेदिकाभिरच मानुषौघभरत्तमम् ॥ ९ ॥ स दृष्ट्वा भूषितं
रंगमाज्ञापयत् बुद्धिमान् । श्वः सचित्राः समाख्याश्च सपता-
कास्तथैव च ॥ १० ॥ सुवासिता वपुष्मन्त उपनीतोत्तरच्छदाः ।

(इसीके लिये) मारडाला था ॥ ३ ॥ पुरुषार्थसे दैवका उल्लंघन
नहीं किया जासकता, नारदजीका कहा हुआ वचन ही मेरे
सामने आगया है ॥ ४ ॥ इसप्रकार विचारके अनन्तर राजा
अपने श्रेष्ठ घरमेंसे निकल कर मञ्चोंको देखनेकी इच्छासे प्रेक्षा-
गारमें पहुँचा ॥ ५ ॥ उस राजश्रेष्ठने प्रेक्षागार (देखनेके स्थान)
में जाकर सब सामग्रीको ठीक पाया, तहाँ पर एक शिल्पसे
आजीविका चलाने वालोंने दृढ़तासे मञ्चवाटोंको बनाया था ६
तहाँ पर उत्तम २ मञ्चान बन रहे थे और वह दोनों ओर झुकी
छः स्तम्भ वाली, एक स्तम्भ वाली बड़ी २ मञ्चानोंसे विभूषित
था ॥ ७ ॥ वह चारों ओरसे दृढ़ था, बहुत लंबा था, सुप्रतिष्ठित
था तहाँ मञ्च पर सोपानपंक्ति ऊँची असंकुचित और सुश्लिष्ट
थी ॥ ८ ॥ वह राजाओंके आसनोंसे भरा हुआ था उसमें आने
जानेके बहुतसे मार्ग थे, वह मञ्चस्थान वेदिकाओंसे व्याप्त और
मनुष्योंका भरण करनेमें समर्थ था ९ बुद्धिमान् कंसने रंगस्थानको
विभूषित देख आज्ञा दी, कि-कलको मञ्चवाट और बलभियों तथा
वीथियोंको चित्रविचित्र माला पताकाओंसे विभूषित करना चाहिये

क्रियतां मंत्रवाटारच वलभ्यो वीथयस्तथा ॥ ११ ॥ रंगवाटे करी-
पस्य कल्प्यन्तां राशयोऽङ्गयाः । पटास्तरणशोभाश्च वलगथा-
नुरूपतः ॥ १२ ॥ स्थाप्यन्तां मुनिखाताश्च पानकुम्भा यथा-
क्रमम् । उदभारसहाः सर्वे सक्रांचनघटोत्तमाः ॥ १३ ॥ वलपश्चोप-
कल्प्यन्तां कपायाश्चैव कुम्भशः । प्राशिनकाश्च निमन्त्र्यतां
श्रेयश्च सपुरोगमाः ॥ १४ ॥ आज्ञा च देया मन्त्रानां प्रेक्ष-
काणां तथैव च । समाजे मंत्रशोभाश्च कल्प्यन्तां सूयकल्पिताः १५
एवाज्ञाप्य राजा स समाजविधिमुत्तमम् । समाजवाटान्निष्क्रम्य
विवेश स्वं निवेशनम् ॥ १६ ॥ आह्वानं तत्र संचक्रे तस्य मन्त्र-
द्वयस्य वै । चाणूरस्थाममेयस्य मुष्टिकस्य तथैव च ॥ १७ ॥ तौ तु
मन्त्रौ महावीर्यौ बलिनी बाहुशालिनौ । कंसस्याज्ञां पुरस्कृत्य

और उन पर पुरुषोंके चित्र वाले विद्वाने विद्वाने चाहिये १० और
रंगवाटके मध्यमें करीपोंकी (उपलोंके चणोंकी) अक्षय राशियें
(मन्त्रोंका पसीना दूर करनेके लिये वा मंगलके लिये) लगानी
चाहिये, शोभनीय दुपट्टे उड़ा कर बलियें खड़ीकी जाँप और
उनको भली प्रकार खेद कर स्थापित किया जाय और उन पर
जल पीनेके लिये कलश रक्खे जावें वे सब (बलियोंकी बनी
हुई पल्लवियें) भारको सह सकने वाली हों और सब पर सुवर्ण
के कलश रक्खे जावें ११-१३ तहाँ बलिकी कल्पनाकी जाय
और कुंभोंमें रस भर कर रक्खा जाय और युद्धधर्मको जानने
वालोंको निर्मंत्रण दिया जाय और वह आगेकी श्रेणीमें बैठें १४
और मन्त्रोंको तथा प्रेक्षकोंको भी यहाँ पर आनेकी आज्ञादो
और इस समाजमें भङ्गोंकी शोभा खूब बढ़ाओ १५ वह राजा
इस प्रकार उत्तम समाज बनानेकी विधि बता कर समाजवाटसे
निकल कर अपने घरको चला गया १६ तहाँ उसने अमेय
चाणूर और मुष्टिक इन दोनों मन्त्रोंको बुलाया १७ तब वे महा-

हृष्टौ विविशनुस्नदा ॥ १८ ॥ तौ समीपगतौ दृष्ट्वा मल्लौ जगति
 विश्रुनौ । उवाच कंसो नृपतिः सोपन्यासमिदं वचः ॥ १९ ॥
 भवन्तौ मम विख्यातौ मल्लौ वीरध्वजोच्छ्रितौ । पूजितौ च यथा
 न्यायं सत्कारार्हौ विशेषतः ॥ २० ॥ तन्मतो यदि सत्कारः
 स्मर्यते सुकृतानि चाकर्तव्यं मे महत्कर्म भवद्भ्यां स्वेन तेजसा २१
 यावेतौ मम संवृद्धौ व्रजे गोपालकावुभौ । संकर्षणश्च कृष्णश्च
 बालावपि जितश्रमौ ॥ २२ ॥ एतौ रंगगतौ युद्धे युद्ध्यमानौ वने-
 चरौ । निपातानन्तरं शीघ्रं हन्तव्यौ नात्र संशयः ॥ २३ ॥ बाला-
 विमौ सुवपलावक्रियाविति सर्वथा । नावज्ञा तत्र कर्तव्या कर्तव्यो
 यत्न एव हि ॥ २४ ॥ ताभ्यां युधि निरस्ताभ्यां गोपाभ्यां रंग-
 सन्निभौ । अपात्प्रां च तदात्वे च श्रेयो मम भविष्यति ॥ २५ ॥

वीर्यवान् बली भुजबलशाली दोनों मल्ल कंसकी आज्ञाको
 शिरोधार्य कर प्रसन्न होकर तहाँ घुसे १८उन पृथ्वी भरमें प्रसिद्ध
 दोनों मल्लोंको आया हुआ देख कर राजा कंसने उन दोनोंसे
 युक्तिपुक्त यह वचन कहा, कि १९ तुम दोनों मेरे प्रसिद्ध मल्ल
 हो और वीरध्वजा (तोरण आदि) लगा कर मैंने तुम्हें बहुत
 ऊँचा बना दिया है मैंने तुम्हारी यथाविधि पूजाकी है और तुम
 सत्कारके ही पात्र हो २० यदि तुम्हें मेरे सत्कार और मेरे किये
 हुए सुकृतका स्मरण हो तो तुम अपने तेजसे मेरा एक बड़ा
 भारी काम करो २१ मेरे व्रजमें ये दोनों गोप बालक जिनका कि-
 नाम कृष्ण और संकर्षण है, पले हैं ये दोनों बालक होने पर भी
 कभी थकते नहीं हैं २२ जब ये वनेचर रंगस्थल (अखाड़े) में
 आकर युद्ध करने लगे तो इनसे गिड़ते ही तुम इनको अवश्य
 मार डालना २३ ये दोनों बालक चपल हैं परन्तु अशिक्षित हैं,
 परंतु तुम इस बातकी अवज्ञा न कर यत्न अवश्य करना २४
 जब वे दोनों गोप युद्धमें मारे जावेंगे तब वर्तमानकालमें और

नृपतेः स्नेहसंयुक्तैर्वचोभिर्हृष्टमानसो । ऊचतुयुद्धसम्मत्तौ मन्त्रौ
 चाणूरमुष्टिकौ ॥ २६ ॥ यथावयोस्तौ प्रमुखे स्थास्यंते गोप-
 कित्त्वियौ । इतावित्येव मन्तव्यौ प्रेतरूपौ तपस्विनौ ॥ २७ ॥
 यथावां प्रतिगोत्स्येते तावद्विष्टपरिलुतौ । आवाभ्यां रोपयुक्ताभ्यां
 प्रमुखे तौ वनेचरौ ॥ २८ ॥ एवं वाग्निपमुत्सृज्य तावुर्भौ मन्त्र-
 पुंगवौ । अनुज्ञातौ नरेन्द्रेण स्वे गृहे तौ मजगमंतुः । २९ ॥ महा-
 मात्रं ततः कंसो वभाषे हस्तिजीविनम् । हस्ती कुवलययापीडः
 समाजद्वारि तिष्ठतु ॥ ३० ॥ बलवान् मदलोलाक्षश्चपलः क्रोधनो
 नृषु । दानोत्कटकटरचण्डः प्रतिवारणरोपणः ॥ ३१ ॥ स संनोद-
 यितव्यस्ते तानुद्दिश्य वनौकसौ । वसुदेवसुतौ वीरौ यथा स्यातां
 गतायुषौ ॥ ३२ ॥ त्वया चैव गजेन्द्रेण यदि तौ गोष्ठजीविनौ ।

भविष्यकालमें भी मेरा कल्याण होगा २५ उन दोनोंका राजाके
 स्नेहभरे वचनोंसे हृदय मसन्न होरहा था अतः वह युद्धमत्त
 चाणूर और मुष्टिक नामक मन्त्र कहेने लगे, कि-२६ यदि वे
 गोपकुलरुलंरु हमारे सामने खड़े रहेंगे तो उन तपस्वियोंको मरा
 हुआही समझिये, वे प्रेत बन जावेंगे २७ यदि वह अरिष्टवश हमसे
 युद्ध करेंगे तो हम रोपमें भर उन जंगलियोंको मारडालेंगे २८
 उन मन्त्रोंके इस प्रकार वाणीरूप विष उगलनेके अनन्तर राजाने
 उनको जानेकी अनुज्ञा दी और वे अपने घरोंको चले गए २९
 तदनन्तर कंसने हाथियोंसे आजीविका चलाने वाले हाथीवान्
 से कहा, कि कुवलययापीड हाथी समाजके द्वार पर खड़ा रहे ३०
 वह बलवान् है, उसके नेत्र मदके कारण चञ्चल रहा करते हैं,
 और वह चपल है तथा मनुष्योंको देख कर उसको क्रोध
 आजाया करता है उसके गण्डस्थल मदसे भरे रहते हैं और वह
 चण्ड हाथी इटाते समय रोप करने लगता है ॥ ३१ ॥ तुम उन
 जंगलियोंको लक्ष्य करके हाथीको इस प्रकार उकसाना, कि वे

भवेनां पतिनो रगे पश्येयमहमुत्पटौ ॥ ३३ ॥ ततस्तौ पतिनौ
दृष्ट्वा वसुदेवः सयन्नावः । छिन्नमूलो निरालम्बः सभागो विन-
शिष्यति ॥ ३४ ॥ ये चेमे यादवा मूर्खाः सर्वे कृष्णपरायणाः ।
विनशिष्यन्ति छिन्नाशा दृष्ट्वा कृष्णं निपातितम् ॥ ३५ ॥ एतौ
हत्वा गजेन्द्रेण मल्लोर्वा स्वयमेव वा । पुरीं निर्यादन्तौ कृत्वा
विचरिष्याम्यहं सुखी ॥ ३६ ॥ गितां द्वि मे परित्यक्तो यादवानां
कुलोद्बहः । शोभाश्च मे परित्यक्ता यादवाः कृष्णपत्निणः ॥ ३७ ॥
न चाहमुग्रमेनेन जातः किल सुनार्थिना । गानुषेणान्पवीर्येण यथा
मागाह नारदः ॥ ३८ ॥ महामान उवाच । कथमुक्तं नारदेन
राजन देवर्षिणा पुरा । आश्चर्यमेतत् कथितं त्वत्तः श्रुतपरि-

वसुदेवके दोनों वीर पुत्र पर ही जावें ॥ ३२ ॥ जब तुम था
हाथी उन दोनों गोष्ठों जीवन विनाने वालोंको रंगस्थलमें गिरा
दोगे तब मैं उन दोनों उत्कट वीरोंको देखूंगा ॥ ३३ ॥ उन
दोनोंको गिरा हुआ देख कर वसुदेव वसुदेवकी स्त्रियों और
वसुदेवके बान्धव अवलम्बरहित होकर जड़ कट जानेसे नष्ट
होजावेंगे ॥ ३४ ॥ और जो मूर्ख यादव कृष्णका पत्न लेते रहते
हैं, ये सब भी कृष्णको गिरा हुआ देख कर आशा नष्ट हो
जानेसे पर जावेंगे ॥ ३५ ॥ मैं हाथीके द्वारा वा गल्लोंके द्वारा
अथवा अपने आप ही इन दोनोंको मार कर पुरीको यादवोंसे
ग्वाली कर सुम्बपूर्वक विनरण करूँगा ॥ ३६ ॥ मैंने यदुओंके
कुनामे सहारा देने वाले अपने पिताको त्याग दिया और मैं
कृष्णका पत्न लेने वाले यादवोंको भी त्याग दूँगा ॥ ३७ ॥ मैं
सुन चाहता हूँ अन्पवीर्य गानुष्य उग्रमेनसे उत्पन्न नहीं हुआ,
यह बात मुझे नारदजीने बतलाई थी (अतः मैं उग्रसेनका सत्कार
नहीं करूँ) ॥ ३८ ॥ (यह सुन कर हाथीयान् बोल उठा कि-
हे राजन ! देवर्षि नारदजीने तुमने सब बात बतही थी, हे अरि-

न्दय ॥ ३६ ॥ कृष्णान्धेन जातस्त्वमुग्रसेनात् पितृविना । तव
 गात्रा कथं राजन् कृतं कर्मदगीदृशम् ॥ ४० ॥ अन्यापि गाहता
 नारी न कुर्याच्च जुगुप्सितम् । विस्तरं श्रोतुमिच्छामि ह्येतत् कौतू-
 हलं हि मे ॥ ४१ ॥ कस उवाच । यथा कथितवान् विप्रो महर्षि-
 नारदः मधुः । तथाऽहं सप्रवक्ष्यामि यदि ते श्रवणे प्रतिः ४२
 आगतः शक्रसदनात् स वै शक्रसखो मुनिः । चन्द्रांशुशुक्लवसनो
 जटामण्डलमुद्गहन ॥ ४३ ॥ कृष्णाग्निोत्तरीयेण रुमयज्ञोपवीत-
 चान् । दण्डी रूपण्डलुरारः मन्त्रापतिरिन्द्रापरः ॥ ४४ ॥ गात्रा
 चतुर्णां वेदानां विद्वान् गान्धर्ववेदवित् । स नारदोऽथ देवर्षि
 ब्रह्मलोकावरोऽगम्यः ॥ ४५ ॥ तमागतमृषिं दृष्ट्वा पूजयित्वा यथा
 दगन ! मैंने आगयी यह बात सुनी, परन्तु यह तो एक आश्चर्य
 है ॥ ३६ ॥ तुम पिता उग्रसेनके अतिरिक्त दूसरे व्यक्तिसे किस
 प्रकार उत्पन्न हुए हो और हे राजन् ! तुम्हारी गात्राने ऐसा
 कार्य कैसे कर लिया ॥ ४० ॥ ऐसे कुंत्सित कर्मसे तो
 कोई सागरण स्त्री भी नहीं कर सकती ? मुझे इस
 बातसे बड़ा कुतूहल हो रहा है, अतः मैं इस बातको विस्तारपूर्वक
 सुनना चाहता हूँ ॥ ४१ ॥ कंभने कहा, कि-यदि तू इस बातको
 सुनना चाहता है, तो मधु महर्षि नारदजीने जो बात
 मुझसे कही थी, उसको मैं कहता हूँ ॥ ४२ ॥ वह मुनि इन्द्रके
 मित्र है वह इन्द्रके भवनसे (एक समय) आये थे, उस समय
 उनके वस्त्र चन्द्रमाकी किरणोंकी समान श्वेत थे और उनके
 शिर पर बड़ी २ जटाएँ थीं ॥ ४३ ॥ वह कृष्णमृगके चर्मको
 दुपट्टेकी समान डाले हुए थे, और चतुर्णामा यज्ञोपवीत पहन रहे
 थे, उनके हाथमें दण्ड रूपण्डल था, इस कारण वह दूसरे मन्त्रा-
 पतिभी समान प्रतीत हो रहे थे ॥ ४४ ॥ वह विद्वान् चारों वेदानां
 गायन किया करते थे और गान्धर्ववेदसे जानते थे ऐसे अगुण

विधि । पाद्यार्घमासनं दत्त्वा संप्रवेशयोपविश्य ह ॥४६॥ सुखो-
पविष्टोऽथ मुनिः पृष्ट्वा च कुशलं गम । उवाच च प्रीतमना देवर्षि-
र्भावितात्मवान् ॥ ४७ ॥ नारद उवाच । पूजितोऽहं त्वया वीर
त्रिविदष्टेन कर्मणा । इदमेकं गम वचः श्रूयतां प्रतिवृद्धताम् ॥४८॥
गतोऽहं देवसदनं सौवर्णं मेरुपर्वतम् । सोऽहं कदाचिद्देवानां
समाजे मेरुमूर्धनि ॥४९॥ तत्र मन्त्रयतामेतं देवतानां मया श्रुतः ।
भवतः सानुगस्यैव वधोपायः सुदारुणः ॥ ५० ॥ तत्र यो देवकी-
गर्भो विष्णुर्लोकमस्क्रुतः । योस्या गर्भोऽष्टमः कंसः स ते मृत्यु-
र्भविष्यति ॥ ५१ ॥ देवानां स तु सर्वस्वं त्रिदिवस्य गतिश्च सः ॥
परं रहस्यं देवानां स ते मृत्युर्भविष्यति ॥ ५२ ॥ यत्नश्च क्रियतां

देवर्षि नारद ब्रह्मलोकमें भी विचरण क्रिया करते हैं ४५ में
उन ऋषिको आया हुआ देख कर उनको घरमें लिया और
उनकी शास्त्रानुसार पूजा की, और उनको पाद्य अर्घ्य और
आसन दिया, फिर मैं भी उनके समीप बैठ गया ॥४६॥ तब
सुखपूर्वक बैठनेके अनन्तर उन मुनिने मेरा कुशल समाचार
चूझा, फिर वह पवित्र चित्त वाले देवर्षि गनमें प्रसन्न होकर
कहने लगे ॥४७॥ नारदजीने कहा, कि-हे वीर ! तूने शास्त्रोक्त
विधिसे मेरा पूजेन किया है, अब तू मेरी एक बात सुन और
उसको ग्रहण कर ॥ ४८ ॥ मैं देवताओंके निवासस्थान सुवर्ण-
गण मेरु पर्वत पर एक समय गया था, तहाँ पर मैंने मेरु पर्वतके
शिखर पर देवताओंकी एक सभामें देवताओंको आपके और
आपके भाईके वचने दारुण उपायकी बात चीन करते सुना था,
कि-४९-५० लोकमस्क्रुत विष्णु देवकीके आठवें गर्भ होने और
देवकीका आठवाँ गर्भ हे कंस ! तेरा मारने वाला होगा ॥५१॥
वह देवताओंका सर्वस्व है और स्वर्गकी गति है तथा देवताओंका
परम रहस्य है, वही तेरा काल होगा ॥ ५२ ॥ हे कंस ! अब तू

कंस गर्भाणां पातनं प्रति । नागज्ञा रिपवे कार्गा दुर्वले स्वजनेऽपि
 वा ॥ ५३ ॥ न चायमुग्रसेनः स पिता तव महाबलः । द्रुमिलो
 नाम तेजस्वी सौभस्य पतिरुज्जितः ॥ ५४ ॥ श्रुत्वाहं तद्वचःतस्य
 किञ्चिदोपसमन्वितः । भूयोऽगृच्छं कथं ब्रह्मन् द्रुमिलो नाम दानवः
 मम माता कथं तस्य ब्रूहि विप्र समागमः । एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं
 विस्तरेण तपोवन ॥ ५६ ॥ नारद उवाच । इन्त ते कथयिष्यामि
 शृणु राजन् यथार्थतः । द्रुमिलस्य च गात्रा ते सम्वादं च समा-
 गमम् ॥ ५७ ॥ सुयामुनं नाम नगं तव माता रजस्वला । प्रेक्षितुं
 सहिता, स्त्रीभिर्गता वी सकुतूहला ॥ ५८ ॥ सा तत्र रमणीयेषु
 रुचिरद्रुमसालुषु । चचार नगशृङ्गेषु कन्दरेषु नदीषु च ॥ ५९ ॥
 किन्नरोद्भोतमधुराः प्रतिश्रुत्वाभिनादिताः । शृण्वन्ती काम-

गर्भ गिरानेका यत्न करना, क्योंकि-दुर्वल शत्रु यदि अपना हो
 तब भी उसको उपेक्षाकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये ॥ ५३ ॥
 महाबली उग्रसेन तेरा पिता नहीं है, सौभका स्वामी बली और
 तेजस्वी द्रुमिल तेरा पिता है ॥ ५४ ॥ उनके बचनको सुन कर
 मेरे मनमें कुछ बुरा प्रतीत हुआ, परन्तु मैंने उनसे फिर बृक्षां,
 कि-हे ब्रह्मन् ! द्रुमिल नामक दानव मेरा पिता क्यों है ? ५५
 हे विप्र ! यह बताइये ! कि-मेरी मातासे उसका समागम किस
 प्रकार हुआ था, हे तपोवन ! इस बातको मैं विस्तारपूर्वक सुनना
 चाहता हूँ ॥ ५६ ॥ नारदजीने कहा, कि-हे राजन् ! तेरी माता
 का और द्रुमिलका समागम और सवाद जिस प्रकार हुआ था,
 उसको मैं यथार्थ रीतिसे कहता हूँ ॥ ५७ ॥ एक समय तेरी माता
 रजस्वला हुई और कुतूहलवश स्त्रियोंको साथमें लेकर सुयामन
 नामक पर्वतको देखनेके लिये गई ॥ ५८ ॥ तहाँ वह रमणीय
 और रुचिर वृक्षोंके नीचे तथा पर्वतके शिखरों पर और कन्दराओं
 में विचरण करने लगी ॥ ५९ ॥ तहाँ वह कानोंको आनन्द देने

हांश्च महिपाञ्चरभाञ्छान् ॥७४॥ सुपरांश्चपराङ्ग्यंकून् मात-
 गान् यत्तरान्तसान् । एवं बहुविधान् पश्यंश्चरमाणो नगोत्त-
 गम् ॥ ७५ ॥ दूराद्दर्श नृपतिर्देवीं देवसुतोपगाम् । क्रीडमानां
 सखीभिश्च पुष्पं चैव विचिन्वतीम् ॥७६॥ ततश्चरन्तीं सुश्रोणीं
 सखीभिः सह सम्भृताम् । दृष्ट्वा सौभगतिर्दूराद्विस्मयन् मृतगत्र-
 व्रवीत् ॥७७॥ कस्येयं मृगशावन्ती वनान्नरविचारिणी । रूपौ-
 दार्यगुणोपेता मन्मथस्य रतिर्यथा ॥ ७८ ॥ शचीव पुरुहूतस्य
 उताहो वा तिलोत्तमानारायणोऽहं निर्भिद्य सम्भूता वरवर्णिनी ।
 ऐतस्य दयिता देवी योऽपिद्रुत्नं किमुर्वशी ॥ ७९ ॥ क्षीराण्ये
 मध्यमाने सुरासुरगणैः सह । मन्थानं पन्दरं कृत्वाऽमृतार्थमिति
 नः श्रुतम् ॥८०॥ ततोऽमृतात् समुत्तम्यौ देवी श्रीलोकभाविनी ।

सुपरांको चपरांको न्यंकु (वारासिगों) को हाथियोंको यत्नोंको
 रान्तसोंको इस प्रकार बहुतसी वस्तुओंको देखते हुए पर्वतके
 शिखर पर विचरण करने लगे ७२-७५ इनमें ही उस नृपतिने
 दूरसे ही देवताकी पुत्रीकी समान देवीको अपनी सखियोंके साथ
 क्रीड़ा करती हुई और पुष्पोंको तोड़ती हुई देखा ७६ उस
 सुश्रोणीको सखियोंके साथ विचरती हुई दूरसे देख कर सौभगति
 विस्मयमें हो अपने मृतसे कहने लगा, कि-७७ यह वनमें घूमने
 वाली मृगोंकी समान नेत्र वाली किमकी (पत्नी) वनके भीतर
 फिर रही है यह कामदेवकी पत्नी रतिकी समान रूप और
 उदारताके गुणोंसे सम्पन्न है ७८ यह क्या इन्द्रकी इन्द्राणी है,
 अथवा यह तिलोत्तमा है अथवा यह नारायणकी जंघाको फोड़
 कर निकली हुई ऐल (पुरूरवा) की पत्नी वरवर्णिनी स्त्रीरत्न
 उर्वशी है ७९ देवता और असुरोंने अमृत पानेके लिये मन्दरानल
 का रई बना कर क्षीर समुद्रको मथा था ८० तब अमृतमेंसे
 लोकोंको प्रसन्न करने वाली देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी क्या यह

नारायणकिलुलिता किं श्रीरेषा वरांगना ॥ ८१ ॥ नीलमेवा-
तरगता द्योतयन्त्यचिरप्रभा । तथा योपिद्वयान् मध्ये रूपं पद्योत-
यद्गनम् ॥ ८२ ॥ अतीव सुकुमारांगी सुप्रभेन्दुनिभानना । दृष्ट्वा
रूपमनिर्वाग्या विभ्रान्तो व्याकुलेन्द्रियः ॥ ८३ ॥ कामस्य वशमा-
पन्नो मनो विभ्रमतीव मे । भृशं कृन्तति मेऽगानि सायकैः कुसु-
मायुधः ॥ ८४ ॥ भित्त्वा हृदि शरान् पंच निर्दयं इन्ति मे मनः ।
हृदयाग्निं वर्षयति आज्यसिक्त इरानलाः । कथमस्य भवेत् कार्यं
शमार्थं मन्मथाग्निना ॥ ८५ ॥ केनोपायेन किं कुर्वो भजेन्मां
मत्तगामिनी । एवं बहु चिन्तयानो नोपलभ्य च दानवः ॥ ८६ ॥
श्रुतमाह मुहूर्ते तु तिष्ठस्व त्वमिहानघ । अहं यास्यामि तां द्रष्टुं
कस्येयमिति योपितम् ॥ ८७ ॥ प्रतीक्षमाणस्तिष्ठस्व यावदागमनं

वही नारायणकी गोदीमें लोटने वाली वरांगना लक्ष्मी है ८१
नीले मेवोंमें चमकती हुई विजलीकी समान योपिताओंके मध्यमें
अपने रूपको वनमें प्रकाशित करती फिरती है ८२ इसके अंग
अतीव सुकुमार हैं और इसका मुख सुन्दर काति बाले चन्द्रमाकी
समान है इस अनिन्दित अंग वालीके रूपको देख कर मैं भ्रान्त
होरहा हूँ मेरी इन्द्रियें व्याकुल होरही है ८३में कामके वशमें हो
गया हूँ और मेरा मन घूम रहा है और कुसुमायुध कामदेव मेरे
अंगोंको बाण मार कर काट रहा है ८४ यह निर्दय कामदेव पाँच
बाण मार कर मेरे मनको घायल करे डालता है और मेरे हृदय
की अग्निको घी पड़े हुए अग्निकी समान बड़ा रहा है, मैं इस
मन्मथाग्निको किस प्रकार शान्त करूँ ८५ मैं क्या उपाय करूँ ?
जिससे यह मत्तमातंगगामिनी मेरा सेवन करे इस प्रकार अनेक
विचार करने पर भी उस दानवको कुछ विचार न सूझा ८६
तदनन्तर उसने श्रुतसे कहा, कि-हे अनघ ! तू क्षण भर यहाँ
ठहर ! मैं यह देख आऊँ कि-यह किसकी स्त्री है ८७ जब तक

मम । श्रुत्वा तु वचनं तस्य तथास्त्विति वचोऽब्रवीत् ॥ ८८ ॥
एवमुक्त्वा दानवेन्द्रो गमनाय मनो दधे । वायुं पस्पृश्य बलवान्
ध्यानमेवान्वचिन्तयत् ॥ ८९ ॥ मुहूर्तं ध्यानमात्रेण दृष्टं ज्ञानबला-
त्ततः । उग्रसेनस्य पत्नीति ज्ञात्वा हर्षमुपागमः ॥ ९० ॥ उग्रसेनस्य
रूपं वै कृत्वा स्वं परिवर्त्य सः । उपासर्पन्महाबाहुः महसन् दान-
वेश्वरः ॥ ९१ ॥ स्मयमानश्च शनकैर्जग्राहामितवीर्यवान् । उग्र-
सेनस्य रूपेण मातरं ते प्रभर्षयत् ॥ ९२ ॥ सा पतिस्निग्धहृदया
तं भावेनोपसर्पती । शंकिता चाभवत् पश्चात्तस्य गौरवदर्शनात् ॥ ९३ ॥
सा तगाहोत्थिता भीता न त्वं मम पतिर्ध्रुवम् । कश्च त्वं विकृता-
चारो येनास्मि मलिनीकृता ॥ ९४ ॥ एकभर्तृव्रतमिदं मम संदूषितं
मैं आऊँ तब तक तू मेरी बात देखना हुआ बैठा रह, उसके
वचनको सुन कर सूतने “तथास्तु” कही ८८ इस प्रकार कह कर
दानवेन्द्रने अपने मनमें चलनेका विचार किया और वह बलवान्
जलका स्पर्श करके ध्यान करने लगा ॥ ८९ ॥ मुहूर्तभर ध्यान
करनेके अनन्तर उसने ज्ञानबलसे जान लिया, कि-यह, उग्रसेनकी
पत्नी है, यह समझ कर वह हर्षमें भर गया ॥ ९० ॥
तदनन्तर वह महाशुभ दानवेश्वर अपने रूपको पलट उग्रसेनका
रूप बना कर हँसता हुआ आगे हो बढा ॥ ९१ ॥ और उस उग्रसेन
का रूप धारण करने वाले अग्नि वीर्यवान्ने धीरेसे मुस्करा कर
तेरी माताको पकड़ कर उसको धर दवाया ९२ वह पतिके ऊपर
हृदयसे स्नेह करती थी अत एव उसके पास चली गई थी पीछेसे
उसे रक्तिमें (दानवका शरीर) भारी प्रतीत होनेसे शंका हुई ९३
तब तो वह डर गई और उठ कर उससे कहने लगी, कि-तू मेरा
मेरा पति नहीं है, यह निश्चय है अरे दुराचरणी तू कौन है ? तूने
मुझे मलिन (कर्ण) कर दिया ? ॥ ९४ ॥ हे नीच ! तूने मेरे
पतिकका रूप धारण कर नीचकर्म करके मेरे एकभर्तृव्रतको दूषित

त्वया । पत्युर्मे रूपमास्थाय नीच नीचेन कर्मणा ॥ ६५ ॥ किं
 मां वदन्ति त्वयि वाग्धवाः कुलपांसनीम् । जुगुप्सिता च पत्-
 स्यामि पतिपत्नैर्निराकृता ॥ ६६ ॥ धिक्त्वामीदृशमन्तान्तं दुष्कुलं
 व्युत्थितेन्द्रियम् । अविश्वास्यामनायुष्यं परदारामिपर्शनम् ॥ ६७ ॥
 स तामाह मसज्जन्ती तिस्रः क्रोधेन दानवः । अहं वै द्रुमिलां नाम
 सौभस्य पतिरुजितः ॥ ६८ ॥ किमाक्षिपसि रोपेण मूढे पंडित-
 मानिनि । मानुषं पतिमाश्रित्य नीचं मृत्युवशे स्थितम् ॥ ६९ ॥
 व्यभिचारान्न दुष्यन्ति स्त्रियः स्त्रीमानगर्हिते । न ह्यासां नियतां
 बुद्धिर्मानुषीणां विशेषतः ॥ १०० ॥ श्रूयन्ते हि स्त्रियो पन्थो

कर दिगा ॥ ६५ ॥ क्रोधमें भरे हुए मेरे वाग्धव मुझ कुलकुल-
 किनीसे क्या कहेंगे ? अरे ! पतिकी ओरके मनुष्य मेरा निरादर
 करेंगे तब मुझे उनमें निन्दित होकर बसना पड़ेगा ६६ अरे ! उच्छ्रद्धाल
 इन्द्रियोंको नष्ट करने वाले दुष्कुलीन और इन्द्रियोंको वशमें न
 रखने वाले तुम्हें धिक्कार है ! दूसरेकी स्त्रियोंसे व्यभिचार करना
 आयु घटाने वाला और विश्वास घटाने वाला है ॥ ६७ ॥ जब
 वह इस प्रकार कलह करके दानव पर आक्षेप करने लगी तब
 दानवने क्रोधमें भर कर कहा, कि- 'अरी ! मेरा नाम द्रुमिल है,
 मैं सौभ देशका बलवान् स्वामी हूँ ॥ ६८ ॥ अरी ! अपनेको
 बुद्धिमान् समझने वाली मूर्खे ! तू रोपमें भर कर मुझ पर
 आक्षेप क्यों कर रही है ! तेरा पति तो मृत्युके अर्थात् अत एव
 नीच मनुष्य है (फिर तू ऐंसा अभिमान क्यों करती है) ॥ ६९ ॥
 अरी ! (अमानुषोंसे हुए) व्यभिचारसे स्त्रियें दूषित नहीं होती
 हैं (चित्तके चञ्चल होनेसे स्वप्नके व्यभिचारकी समान इस व्य-
 भिचारसे भी तुम्हें दोष न लगेगा) अरी स्त्रीमानगर्हिते ! स्त्रियों
 की बुद्धि निश्चल नहीं होती है और मानुषी स्त्रियोंकी बुद्धि तो
 अधिकतर निश्चल नहीं होती है ॥ १०० ॥ हमने सुना है, कि;

व्यभिचारव्यतिक्रमैः । प्रसूता देवसंकाशान् पुत्रान् निश्चलविक्र-
मान् ॥ १ ॥ अतीव हि त्वं स्त्री लोके पतिधर्मवती सती । शुद्ध-
केशान् विधुन्वन्ती भापसे यद्यदिच्छसि ॥ २ ॥ कस्व त्वमिति
यच्चाहं त्योक्तो मत्तकाशिनि । कंसस्तस्माद्रिपुध्वंसी तव पुत्रो
भविष्यति ॥ ३ ॥ सा सरोपा पुनर्भूत्वा निन्दती तस्य तं वरम् ।
उवाच व्यथिता देवी दानवं धृष्ट्यादिनम् ॥४॥ वित्ते वृत्तं सुदुर्वृत्त-
यः सर्वा निन्दसि स्त्रियः । सन्ति स्त्रियो नीचवृत्ताः सन्ति चैव
पतिव्रताः ॥ ५ ॥ यास्त्वेकपत्यः श्रयन्तेऽरुन्धतीप्रमुखाः स्त्रियः ।
धृता याभिः प्रजाः सर्वा लोकाश्चैव कुलाधम ॥ ६ ॥ यस्त्वया

बहुतसी (कुन्ती मदगन्ती आदि) स्त्रियोंने व्यभिचार करके
देवताकी समान अवल पराक्रम वाले पुत्रोंको उत्पन्न किया
था ॥ १०१ ॥ अरी ! इस लोकमें एक तू ही तो बड़ी पतिव्रता
है जो हमसे शुद्धकेश पुरुषोंका तिरस्कार करती हुई जो मनमें
आरहा है मलाप कर रही है (अर्थात् " यानि कानि च पापानि
केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति" सब पाप केशोंका आश्रय करके रहते हैं
इस वचनके अनुसार हम तो निर्दोष है तब भी तू हमें धमका कर
हमारा तिरस्कार कर मलाप कर रही है) १०२ हे मत्तकाशिनि !
तूने मुझ से कहा, कि-तू किसका है ? इस कारण तेरे (उदरसे)
शत्रुओंको नष्ट करने वाला कंस नामक पुत्र होगा" १०३ तब
तेरी माता रोपमें भर कर उसके चरकी निन्दा करती हुई व्यथित
होकर उस दौड़तासे भाषण करने वाले दानवसे कहने लगी,
कि-१०४अरे दुर्वृत्तानुभो विकार है तू सकल स्त्रियों की निन्दा
कर रहा है (कुन्ती आदि ने भी आपत्तिके धर्मानुसार पुरुषान्तर
से संबंध किया था, कामविकारसे नहीं किया था) स्त्रियें नीच
भी हैं और पतिव्रता भी हैं १०५ अरुन्धती आदि एक पति वाली
स्त्रियें प्रसिद्ध हैं, हे कुलाधम ! वह सकल प्रजा और सकल

मम पुत्रो वै दत्तो वृत्तविनाशनः । न मे बहुमतस्त्वेव शृणु चापि
 यदुच्यते ॥ १०७ ॥ उत्पत्स्यति पुमान्नीच पतिवंशे ममाऽद्य
 यः । भविष्यति स ते मृत्युर्यश्च दत्तस्त्वया सुतः ॥ ८ ॥ द्रुगि-
 लस्त्वेवमुक्तस्तु गगामाकाशमेव तु । तेनैव रथमुख्येन दिव्येना-
 पतिगाभिना ॥ ६ ॥ जगाम च पुरीं दीना माता तदहरेव ते ।
 मामेवमुक्त्वा भगवान्नारदो मुनिसत्तमः ॥ ११० ॥ दीप्यमान-
 स्तपोवीर्यात् साक्षाद्गिरिव ज्वलन् । वल्लर्की वाद्यमानो हि
 सप्तस्वरविमूर्च्छिताम् ॥ ११ ॥ गायनो लक्ष्मवीथी स जगाम
 ब्रह्मणोन्तिकम् । शृणुष्वेदं महामात्र निबोध वचनं मम ॥ १२ ॥
 तथ्यं चोक्तं नारदेन त्रैलोक्यज्ञेन भीमता । अहं बलेन वीर्येण मदेन
 विनयेन च ॥ १३ ॥ मभावेत्यैव शौर्येण तेजसा विक्रमेण च ।
 सत्येन चैव दानेन नान्योऽस्ति सदृशः पुमान् ॥ १४ ॥ विदित्वा

लोकोंको धारण कर रही है १०६ अरे ! तूने मुझे आचारनाशक
 पुत्र दिया, मैं इसको अच्छा नहीं समझती, अब मैं तुझसे जो
 कुछ कहती हूँ, उसको सुन १०७ मेरे पतिके वंशमें ईश्वर उत्पन्न
 होंगे, हे नीच ! वह तेरी और तेरे दिये हुए मुझसे उत्पन्न हुए
 पुत्रकी भी मृत्यु होंगे १०८ यह कहते ही द्रुगिल तो अपने उसही
 इकड़ गति वाले दिव्य और मुख्य रथ पर बैठ कर आकाशमें
 चला गया १०९ और उसी दिन तेरी माता भी दीन होकर
 अपनी नगरीको-चली आई । मुझसे इस प्रकार कह कर मुनि-
 सत्तम नारदजी भी ११० अपने तपोवीर्यसे साक्षात् अग्निकी
 समान दिपते हुए अपनी मत्त स्वरसे भूर्छित वीणाको बजाते हुए
 ब्रह्मलोकके मार्गसे ब्रह्माजीके पास चले गए. हे हाथीयान ! तू
 मेरे इस वचनको सुन और समझ १११-११२ निलोकीको जानने
 वाले बुद्धिमान् नारदजीने यह सब सत्य ही कहा था , क्योंकि-
 मैं भी मद वीर्य विनय मभाव शूरता तेज विक्रम सत्य और दान

सर्वमात्मानं वचनं श्रद्धाभ्युदयम् । क्षेत्रज्ञोऽहं सुतस्त्वस्य
 उग्रसेनस्य हस्तिप ॥ १५ ॥ गातापितृभ्यां सन्त्यक्तः स्थापितः
 स्वेन तेजसा । उभाभ्यामपि त्रिद्विष्टो वान्यवैश्च विशेषतः - १६।
 पतानपि हनिष्यामि यादवान् कृष्णपत्निणः । तदिमौ यातयित्वा
 तु हस्तिना गोपकिल्बिषौ ॥ १७ ॥ तद्गच्छ गजमासुह्य सांकुश-
 प्राशनोमरः । स्थिरो भव महामात्र समाजद्वारि मा चिरम् १८
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि कंस-
 वाक्यं नामाष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

वैशम्पायन उवाच । तस्मिन्नहनि निर्वृत्ते द्वितीये समुपस्थिते ।
 आपूर्यत महारंगः पौरैर्युद्धदिदृक्षुभिः ॥ १ ॥ सचित्राष्टास्रचरणाः

में ऐसा हूँ, कि-मेरी समान और कोई पुरुष नहीं है ११३-११४
 इस प्रकार सब प्रकारसे अपनी ओर देख कर मैं नारदजीके वचन
 को सत्य मानता हूँ अत एव हे हस्तिप ! मैं उग्रसेनका क्षेत्रज्ञ पुत्र
 हूँ ११५ गाता पिताने मुझे त्याग दिया है, मैं अपने ही तेजसे
 यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, माता पिता मुझसे द्वेष करते हैं और
 वान्यव तो मुझसे बड़ा द्वेष करते हैं ११६ अत एव मैं इन गोप-
 किल्बिषोंको हाथीसे मरवा कर कृष्णका पत्न लेने वाले यादवों
 कोभी मार डालूँगा ११७ अत एव हे हाथीवान्! अंकुश प्राप्त और
 तोमरोंको ले हाथी पर चढ़ कर जा और समाजके द्वार पर
 जाकर स्थिर हो जा देर मत करे ११८ अट्टाईसवाँ अध्याय
 समाप्त २८

वैशम्पायनजीने कहा, कि-बहु दिन व्यतीत होकर जब दूसरा
 दिन आगया तब रंगस्थल युद्ध देखना चाहने वाले नगर
 निवासियोंसे खनाखच भर गया ॥ १ ॥ उस (समाजवाटके
 मंत्र) चित्रकारी किये हुए थे और अठपहलू थे उनमें वेदी
 बिंदी हुई थी और कण्ठी भी लगी हुई थी और उनमें अर्ध-

सागलद्वारवेदिकाः । सगवात्तार्घ्यचन्द्राश्च सुतन्पोत्तमभूपिताः २
 माङ्गमुखैश्चारुनिर्मुक्तैर्मन्यदामावर्तसिक्तैः । अलंकृतैर्विरागद्भिः
 शारदैरिव तोयदैः ॥ ३ ॥ मञ्ज्यागारैः सुनियुक्तैर्युद्धाय सुवि
 भूपितैः । समाजवाटः शुशुभे समेयोष इवार्यवः ॥४॥ स्वकर्मद्रव्य-
 युक्ताभिः पताकाभिर्निरन्तरम् । श्रेणीनां च गणानां च मञ्ज्या
 भान्स्वचलोपमाः ॥५॥ अन्तःपुरचराणां च प्रेक्षागाराण्यनेकशः ।
 रेजुः कांचनचित्राणि रत्नज्वालाकुलानि च ॥ ६ ॥ तानि रत्नौ-
 ष्यक्लप्तानि ससानुमग्रहाणि च । रेजुर्जवनिकात्तेपैः सपत्ना इव
 खे नगाः ॥७॥ तत्र चागरहारैश्च भूपणानां च सिञ्जतैः । वाणीनां
 च विचित्राणां विचित्राश्चेकरचिपः ॥ ८ ॥ गणिकानां पृथङ्-

चन्द्राकार भरोखे बने हुए थे और उत्तम २ बिल्लौनोंसे वे भूपित
 हो रहे थे ॥ २ ॥ वे पूर्वकी ओर मुख करके रक्खे गए थे और
 हारोंसे विभूषित हो रहे थे, इस प्रकार अलंकृत होकर विराग-
 मान (मंच) शरद ऋतुके बादलोंसे शोभा पारहे थे ॥ ३ ॥
 जिन पर (मञ्ज) नियुक्त कर दिये गए थे ऐसे युद्धके
 लिये विभूषित किये गए मंचोंसे समाजवाट में योंकी घटाओंसे
 ध्याये हुए समुद्रकी समान शोभा पाने लगा ॥ ४ ॥ (जिस
 शिल्प वालेकी जो सामग्री थी उस) अपने कर्मके द्रव्य
 से चिन्हित पताका युक्त श्रेणी वाले और (अनेक जाति वाले
 होने पर भी एक शिल्पसे आग्नीविका चलाने वाले) गणोंके
 बनाये हुए मंच तहाँ पर्वतोंकी समान शोभा पारहे थे ॥ ५ ॥
 और अन्तःपुरमें फिरने वालोंके लिये बने हुए सुवर्णकी चित्र-
 कारी किये हुए और रत्नोंकी कान्तिसे व्याप्त अनेक प्रेक्षागार
 तहाँ शोभा पारहे थे ६ रत्नोंसे जड़े हुए उनके परदे गिराये जाते
 उस समय वे परों वाले शिखरोंसे युक्त पर्वतोंकी समान दीखते
 थे ७ तहाँ प्रेक्षागारोंमें चापर और हार तथा भूपणोंके सिञ्जित

मंचाः शुभैरास्तरणाम्बरैः । शोभिता वारमुढ्याभिर्विमानप्रति-
 मौजसः ॥ ६ ॥ तत्रासनानि ख्यातानि पर्यकारश्च हिरण्ययाः ।
 प्रकीर्णाश्च कुधाश्चित्राः सपुष्पस्तकैर्दृताः ॥ १० ॥ सौवर्णाः
 पानकुम्भाश्च पानभूस्यश्च शोभिताः । फलवदंशपूर्णश्च चांगेर्यः
 पानयोजिताः ॥ ११ ॥ अन्ये च मंचा बहवः काष्ठसंचयबन्धनाः ।
 रज्जुः प्रस्तरणास्तत्र शतशोऽप्य सहस्रशः ॥ १२ ॥ उत्तमागारि-
 काश्चैव मूढमज्जालावलोकिनः । स्त्रीणां प्रेक्षागृहा भान्ति राज-
 हंसा इवाम्बरे ॥ १३ ॥ माण्डूमुखश्चारुनिर्युक्तो मेरुशृंगसम-
 प्रभः । रुक्मपत्रनिभस्तम्भश्चित्रनिर्योगशोभितः ॥ १४ ॥ प्रेक्षा-
 गारः स कंसस्य मचकाशोऽधिकं श्रिया । शोभितो मात्स्यदामैश्च

(भूगकार) और विचित्र वाणियोंकी विचित्र कान्ति फैल रही थी - तहाँ गणिकाओंके लिये अलग मञ्च बनाये गए थे, उन पर शुभ गद्दे विद्याये गए थे वे विमानकी समान मञ्च मुख्य २ गणिकाओंसे सुशोभित हो रहे थे ६ तहाँ पर प्रसिद्ध आसन सुवर्ण पलंग चित्र विचित्र भूत्नें विद्य रही थी और उन पर पुष्प चित्ररे हुए थे १० और सुवर्णकी पलङ्गिमें लगी हुई थी और पाँए भी शोभा पारही थी तहाँ पर जंबीरी आदिकी सिकञ्जवी और चुक्रिक आदि शरवत भी पीनेके लिये रखे हुए थे ११ तहाँ पर काठके बने हुए और भी बहुतसे मञ्च थे उन पर सहस्रों और सैंकड़ों विद्याने विद्य रहे थे १२ तहाँ पर देखनेके लिय मूढम जाली लगे हुए दरके ऊपरके उत्तमागार (दुज्जे) जो स्त्रियोंके देखनेके लिये निगत थे वे आकाशमें राजहंसोंकी समान शोभा पारहे थे १३ पूर्वकी ओर मुख वाला, सुन्दरतासे बनाया हुआ और मेरुशृंगके गिखरकी समान प्रभा वाला और सुवर्णपत्रके समान स्तंभ वाला और चित्रकारीसे शोभित कंसका प्रेक्षागार शोभा पाने लगा १४ कंसका प्रेक्षागार मालाओंकी लडियोंमें

निवासकृतलक्षणः ॥ १५ ॥ तस्मिन् नानाजनाशीर्षं जनौघ-
प्रतिनादिते । समाजवाटे संस्तब्धे कम्पमानार्णवप्रभे ॥ १६ ॥
राजा कुचलयापीडः समाजद्वारि कुञ्जरः । तिष्ठत्विति समाज्ञाप्य
मेत्तागारमुपाययौ ॥ १७ ॥ स शुक्ले वाससी विभ्रच्छ्रेतव्यजन-
चामरः । शुशुभे श्वेतमुकुटः श्वेताभ्र इव चन्द्रमाः ॥ १८ ॥ तस्य
सिंहासनधस्य सुखासीनस्य धीमतः । रूपप्रतिमं दृष्ट्वा पौराः
प्रोचुर्जयाशिषः ॥ १९ ॥ ततः गविविशुर्मन्त्रा रङ्गमावलिताम्बराः ।
तिस्रश्च भागशः कृत्वाः प्राविशन्वल्गुशास्त्रिनः ॥ २० ॥ ततातूर्य-
निनादेन द्वेडितास्फोटितेन च । वसुदेवसुतौ हृष्टौ रङ्गद्वारमुप-
स्थितौ ॥ २१ ॥ (वन्तर्वा वल्लसम्बीतौ सुरचन्दनभूषितौ ।
ऊर्ध्वापीडौ सूगापीडौ बाहुशस्त्रकृतौ यमौ । आस्फोटयन्तावन्योन्यं

पारहा था, और उसमें लक्षण बन रहे थे तब अतिशोभा पाने
लगा १५ वह बहुतसे मनुष्योंसे व्याप्त और मनुष्योंके समूहसे
प्रतिनादित कौपते हुए समुद्रकी समान समाजवाट जब स्तब्ध हो
गया १६ "कुचलयापीड हाथी समजके द्वार पर ठहरे" यह आज्ञा
देकर राजा मेत्तागारमें आगया १७ वह श्वेत वस्त्र पहिर रहा
था और उस पर सफेद झन्ड और चमर डुल रहे थे तथा वह श्वेत
मुकुट पहन रहा था इससे वह श्वेत बादलों वाले चन्द्रमासा प्रतीत
होरहा था १८ सिंहासन पर सुखसे बैठे हुए बुद्धिमान् कसके
अप्रतिम रूपको देख कर नगर निवासी जय २ कार करने
लगे १९ तदनन्तर जिनके वस्त्र कौप रहे थे, ऐसे मन्त्रोंने रङ्ग-
स्थलमें प्रवेश किया, वे जलशाली तीन कृत्ताओंमें वठ गए २०
तदनन्तर तूर्यके निनादसे और थपकनेसे हर्षमें भरे हुए वसुदेव
के, दोनों पुत्र रङ्गद्वार पर आकर खड़े होगए २१ वे दोनों वन्तव
वस्त्रसे ढक रहे थे और देवताओंके वन्दना करनेसे भूषित होरहे
थे उनके पीड (कंधे) ऊँचे थे और उन पर मालाएँ पड़ी हुई

वाहू चैवार्गलोपमा) ॥ २२ ॥ तावपतन्तो त्वरितौ प्रतिषिद्धौ
 वराननौ । तेन मत्तेन नागेन चोद्यमानेन वै भृशम् ॥ २३ ॥ स
 मत्तहस्ती दृष्टात्पा कृत्वा कुण्डलिनं क्रमम् । चकार चोदितो यत्नं
 निहन्तुं बलकेशवो ॥ २४ ॥ ततः प्रहसितः कृष्णस्नात्त्यमानो
 गजेन द्यौ । कंसस्य तन्मगं चैव जगद्दे स दुर्गन्धर्तः ॥ २५ ॥
 त्वग्ने खलु कंसोयं गन्तुं वैवस्वतक्षयम् । यो गामनेन नागेन
 प्रपर्षितुमिच्छति ॥ २६ ॥ सन्निकृष्टे ततो नागे गर्जमाने तथा
 घने । सहस्रोत्पत्य गोविन्दश्चक्रे तालस्वनं प्रभुः ॥ २७ ॥ च्चेडिता-
 स्फोटितरवं कृत्वा नागस्य चाग्रतः करं ससीकरं तस्य प्रतिजग्राह
 वक्षसा ॥ २८ ॥ विपाणान्तरगो भूत्वा पुनश्चरणमध्यगः । ववाधे
 तं गज कृष्णः पवनस्तोयदं यथा ॥ २९ ॥ सहस्ताग्रादिनिष्क्रान्तो

धी और वे अपनी सुनाओंकी ही शस्त्र मानते थे इस लिये वे
 अपनी साँकलोंकी समान सुनाओंको धक्का रहे थे २२उन सुन्दर
 मुख वाले दाँनोंको फुरतीसे अशत देव्य उनकी बारबार उकमाये
 जाते हुए मत्त हाथीसे रोक दिया गया २३ तब तो वह मत्त
 दृष्टात्पा हाथी अपनी सूँडको कुण्डलाकार बना कर प्रेरणा करने
 पर बलराम और केशवको मारनेके लिये पिल पड़ा २४ हाथी
 से पीड़ा पाने पर श्रीकृष्ण हँसे और दुरात्मा कंसके विचारकी
 निन्दा करने लगे २५ कि-यह क्रम यमलोकमें जानेकी शीघ्रता
 कर रहा है, इमी लिये इसने मुझे हाथीसे दबवाना चाहा है २६
 गव हाथी पासमें आकर मेघकी समान गरजने लगा तब गोविन्द
 ने एक साथ उड़न कर तात्पिये चलाई २७ फिर श्रीकृष्णने हाथी
 के सामने च्चेडित और अस्फोटित करके उसके सीकर (फूँट
 करते समय सूँडमेंसे निकलने वाली बूँदे) सहित सूँडको अपने
 वक्षःस्थल पर ले लिया २८ और उसके दाँनोंके बीचमें पहुँच
 गए और फिर गरणोंके मध्यमें आगए इस प्रकार मेघको पीड़ित

विषाणाग्राञ्च दन्तिनः । विद्युक्तः पादमध्याच्च कृष्णो द्विपपो-
 ययत् ॥२०॥ सोतिकापस्तु सम्मूढो हन्तुं कृष्णमशक्रुवन् । गजः
 रवेप्सेव गात्रेषु मध्यमानो ररास ह ॥२१॥ पपात भूमौ जानुभ्यां
 दशनाभ्यां मुतोद चमदं सुस्राव रोषाञ्च घर्मापाये यथाघनः ३२
 कृष्णस्तु तेन नागेन क्रीडित्वा शिशुलीलया । निधनाय मति
 चक्रे कंसद्विदेन चेतसा ॥२३॥ स तस्य प्रमुखे पादं कृत्वा
 कुम्भादनन्तरम् । दोर्भ्यां विषाणमुत्पाट्य तेनैव प्राहरत्तदा ३४
 स तेन वज्ररूपेन स्त्रेन दन्तेन कुञ्जरः । हन्यमानश्शकृन्मूर्धं
 मुषोचार्तो ररास ह ३५ ॥ कृष्णजर्जरितांगस्य कुञ्जरस्यार्तचेतसः ।
 फटाभ्यामतिमुस्राव वेगवद्भूरिशोणितम् ॥३६॥ लांगूलं चास्य

करने वाले पवनकी समान श्रीकृष्ण उस हाथीको पीड़ित करने
 लगे २६ वह हाथीकी सूँडसे दाँतोंसे और पैरोंके बीचमेंसे निकल
 कर हाथीको मसलने लगे ३० तब तो वह हाथी श्रीकृष्णके न
 मार सकनेके कारण मूढ़ होगया अपने शरीरको ही (अपनी
 सूँडसे पीट कर) मयता हुआ चिघाड़ने लगा ३१ तदनन्तर वह
 घुटनोंके बल पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके दाँत पृथ्वीमें गड़गप
 और रोपमें भर वर्षा छलुमें बादलोंकी समान मदवर्षा करने
 लगा ३२ श्रीकृष्णने उस नागसे शिशुक्रीड़ा करनेके अनन्तर
 उस नागको कंसके कारण दूषितचित्त समझ कर उसको मारने
 का निचार किया ३३ उन्होंने उसके गण्डस्थलके भागे उसके
 मुख पर पैर रखवा और अपनी युगाओंसे उसके दाँतको उखाड़
 कर उससे ही उसको मारने लगे ३४ वह हाथी अपने वज्रकी
 समान दाँतसे गिट्ठे पर मूत्र और पुरीष करता हुआ चिघाड़ने
 लगा ३५ कृष्णने जब हाथीके अंगोंको जर्जर कर डाला और
 उसका चित्त दुःखी होगया तब उसके गण्डस्थलमेंसे बहुतसा
 रक्त बहने लगा ३६ और पर्वतों आधे घुसे हुए सौंभके जैसे

याहू चैवार्गलोग्णौ) ॥ २२ ॥ तावपतन्तौ त्वरितौ प्रतिषिद्धौ
 वराननी । तेन मज्जेन नागेन चोद्यमानेन वै भृशम् ॥ २३ ॥ स
 मत्तहस्ती दुष्टात्मा कृत्वाः कुण्डलिनं करम् । चकार चोद्धितो यत्नं
 निश्नुतुं बलकेशवी ॥ २४ ॥ ततः महासितः कृष्णस्त्रास्यमानो
 गजेन वै । कंसस्य तन्मनं चैव जगर्ह स दुर्गात्मनः ॥ २५ ॥
 त्वरने खलु कंसोयं गन्तुं वै त्रस्वतक्षपम् । यो मामनेन नागेन
 प्रघर्षयितुमिच्छति ॥ २६ ॥ सन्निकृष्टे ततो नागे गर्जमाने तथा
 घने । सहस्रोत्पत्य गोविन्दश्चक्रे तालस्वनं प्रभुः ॥ २७ ॥ च्चेडिता-
 स्फोटितरवं कृत्वा नागस्य चाग्रतः करं ससीकरं तस्य प्रतिजग्राह,
 वत्तसा ॥ २८ ॥ विपाणान्तरगो भूत्वा पुनश्चरणमध्यगः । ववाधे
 तं गजं कृष्णः पवनस्नोयदं यथा ॥ २९ ॥ सहस्ताग्राद्विनिष्क्रान्तो

धी और वे अपनी भुनाओंकी ही शस्त्र मानते थे इस लिये वे
 अपनी साँकलोंकी समान भुनाओंको थपका रहे थे २२ उन सुन्दर
 मुख वाले दौनोंको पुरतीसे आते देख उनको बारबार उकमाये
 जाते हुए मत्त हाथीसे रोक दिया गया २३ तब तो वह मदमत्त
 दुष्टात्मा हाथी अपनी सूँडको कुण्डलाकार बना कर प्रेरणा करने
 पर बलराम और केशवको मारनेके लिये पिला पड़ा २४ हाथी
 से पीड़ा पाने पर श्रीकृष्ण हँसे और दुरात्मा कंसके विचारकी
 निन्दा करने लगे २५ कि-यह कंस यमलोकमें जानेकी शीघ्रता
 कर रहा है, इमी लिये इसने मुझे हाथीसे दबवाना चाहा है २६
 जब हाथी पासमें आकर मेघकी समान गरजने लगा तब गोविन्द
 ने एक साथ उद्बल कर तालिये वजाई २७ फिर श्रीकृष्णने हाथी
 के सामने च्चेडित और अस्फोटित करके उसके सीकर (हूँहूँ
 करते समय सूँडमेंसे निफलने वाली धुँदे) सहित सूँडको अपने
 वत्तस्थल पर ले लिया २८ और उसके दाँतोंके बीचमें पहुँच
 गए और फिर चरणोंके मध्यमें आगए. इस प्रकार मेघको पीड़ित

विषाणाग्राच्च दन्तिनः । विष्टुक्तः पादमध्याच्च कृष्णो द्विपयो-
 थयत् ॥२०॥ सोतिकायस्तु सम्मूढो हन्तुं कृष्णमशक्रुवन् । गजः
 रवेप्सेव गात्रेषु मध्यभागो ररास ह॥२१॥ पपात भूर्मा जानुभ्यां
 दशनाभ्यां वृत्तोद चमदं सुस्त्राव रोषाच्च घर्मापाये यथाग्रनः ३२
 कृष्णस्तु तेन नागेन क्रीडित्वा शिशुलीलया । निधनाय मति
 चक्रे कंसद्विष्टेन चेतसा ॥२३॥ स तस्य प्रमुखे पादं कृत्वा
 कुम्भादनन्तरम् । दोर्भ्यां विषाणमुत्पाटय तेनैव प्राहरत्तदा ३४
 स तेन वज्ररूपेण स्वेन दन्तेन कुञ्जरः । हन्यमानश्शक्रुन्मूर्धं
 मुपोत्रार्तो ररास ह३५॥ कृष्णजर्जरितांगस्य कुञ्जरस्यार्तचेतसः ।
 फटाभ्यामतिघुस्त्राव वेगवद्भूरिशोणितम् ॥३६॥ लांगूलं चास्य

करने वाले पवनकी समान श्रीकृष्ण उस हाथीको पीड़ित करने
 लगे २६ वह हाथीकी सूँडसे दाँतोंसे और पैरोंके बीचमेंसे निकल
 कर हाथीको मसलने लगे ३० तब तो वह हाथी श्रीकृष्णके न
 मार सकनेके कारण मूढ़ होगया अपने शरीरको ही (अपनी
 सूँडसे पीट कर) मथता हुआ चिंघाड़ने लगा ३१ तदनन्तर वह
 घुटनोंके बल पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके दाँत पृथ्वीमें गड़गए
 और रोपमें भर वर्षा छतुमें बादलोंकी सगान मदवर्षा करने
 लगा ३२ श्रीकृष्णने उस नागसे शिशुकीड़ा करनेके अनन्तर
 उस नागको कंसके कारण दूषितचित्त सपभ कर उसको मारने
 का विचार किया ३३ उन्हींने उसके गण्डस्थलके भागे उसके
 मुख पर पैर रक्खा और अपनी भुजाओंसे उसके दाँतको बलाड़
 कर उससे ही उसको मारने लगे ३४ वह हाथी अपने वज्रकी
 समान दाँतसे पिटने पर मूढ़ और पुरीष करता हुआ चिंघाड़ने
 लगा ३५ कृष्णने जब हाथीके अंगोंको जर्जर कर डाला और
 उसका चित्त दुःखी होगया तब उसके गण्डस्थलमेंसे बहुतसा
 रक्त बहने लगा ३६ और पर्वतमें आधे घुसे हुए साँपको जैसे

वेगेन निश्चकर्ष हलायुधः शैलपृष्ठाद्दसलीनं वैनतेय इवोरगम् ३७
 तेनैव गजदन्तेन कृष्णो हत्वा तु दन्तिनम् । जघानकप्रहारेण
 गजारोहणमुन्वणम् ॥ ३८ ॥ सार्तनादं महत्कृत्वा विदन्तो
 दन्तिनां वरः । पपात स महापात्रो वज्रभिन्न इवाचलः ॥ ३९ ॥
 ततस्तौ तोरणांगानि प्रगृह्य रणवर्कशां । गजस्य पादरक्षार्च
 जघ्नतुः पुरुपर्षभौ ॥ ४० ॥ तांश्च हत्वा विविशतुर्मध्यं रगस्य
 ताशुभौ । नासत्यावशिवनौ स्वर्गादवतीर्णाविवेच्छया ॥ ४१ ॥
 वृष्णगन्धकाश्च भोजाश्च ददृशुर्वनगालिनां । च्वेडितोत्कृष्टनादेन
 बाहोराभ्फोटितेन च ॥ ४२ ॥ सिंहनादैश्च तालैश्च हर्षयामास-
 तुजनम् । तौ वृष्ट्वा भोजराजस्तु विपसाद वृथामतिः । पौराणा-
 मन्तुरागं च हर्षं चालदय भारत ॥ ४३ ॥ तं हत्वा पुण्डरीकाक्षो

गरुड़जी खीचें, इस प्रकार बलदेवजी भी उसकी पूँछको वेगसे
 खेंचने लगे ३७ श्रीकृष्णने उस हाथीके दाँतसेही उस हाथीके
 पीठनेके अनन्तर उस हाथीके भयंकर नितम्बों पर एक बार महार
 किया ३८ वह बड़े शरीर वाला हाथियोंमें श्रेष्ठ दाँतों रहित हाथी
 बड़ी जोरसे चिंघाड़ता हुआ वज्रसे छिन्नभिन्न किये हुए पर्वत
 की समान ढह पड़ा ३९ तदनन्तर उन पुरुपर्षभ दोनों भाइयोंने
 तोरणोंके स्तंभ आदि अंगोंको उठा कर उस हाथीके पादरक्षकों
 को मार डाला ४० तदनन्तर अश्विनीकुमार जैसे स्वर्गमेंसे अपनी
 इच्छासे उतर आवें, इस प्रकार वे दोनों उन सबको मार कर
 अखाड़ेके बीचमें पहुँच गए ४१ तब वृष्णि अश्वक और भोज-
 वंश वालोंने उन वनमालाधारियोंको देखा तब वे दोनों अपनी
 भुजाओंको गपका कर उत्कृष्ट नाद करके और च्वेडित करके
 अर्थात् बॉसके दण्डेकी फटकार कर जनसमाजको मसन करने
 लगे ४२ हे भारत ! उनको देख कर और उनके ऊपर पुरवासियों
 की भीति और हर्षको देख कर नृथामति भोजराज कंस खिन्न हो

नदन्तं दन्तिना वरम् । अश्वतीर्णोर्णिकारं समाजं सहपूर्वजः ४४
इति श्रीमहाभारते ग्विलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि कुबलया-
पीडवधो नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

गौशम्पायन उवाच । प्रतिशन्तं तु वेगेन मारुता वन्निनां
वरम् । पूर्वजं पुरतः कृत्वा कृष्यं कमललोचनम् ॥ १ ॥ गज
दन्तकृतोन्लोलं सुभुजं देवसीसुनम् । युद्धसम्पर्दयोगेन मदेन
रुधिरेण च । वज्रगपानं यथा सिंह द्यूहपानं यथा घनम् । बाहु-
शब्दप्रहारेण चालगन्तं वसुन्धराम् ॥३॥ औग्रसेनिः सम लोचय
दन्तिदन्तोद्यतापुधम् । नृष्यं भृशायस्तमुखस्सरोपं समुदैक्षत ४
भुजासक्तेन शुशुभे गजदन्तेन वेशवः । चन्द्रार्धविम्बसंसक्तो

गया ४३ उस हाथीके मारनेके अनन्तर पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण
अपने भाईके साथ दहाड़ते हुए उस समुद्राकार जनसमाजमें
पहुच गए ४४ उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त २६

गौशम्पायनजीने कहा, कि-अपने बड़े भाईको आगे करके
परनकी समान उद्वलने वालोंमें श्रेष्ठ कमलदलनयन श्रीकृष्णको
वेगपूर्वक घुसते हुए देखकर (कंसका मुख मलिन होगया) १
उनका शरीर हाथीके दाँतोंसे खुरचा हुआ था और यह सुभुज
देवकीपुत्र युद्धमें रगड़ खानेके कारण (हाथीके) गद और
रुधिरसे सन रहे थे ॥ २ ॥ इस लिये वह (कंसको मारनेके
लिये) मारनेकी इच्छासे क्रोध रहे थे और मेघकी समान डट
गए थे और अपनी भुजाओंका शब्द कर पृथ्वीको डगमगाने
लगे ॥ ३ ॥ इस समय उनके हाथमें हाथीका दाँतरूपी शस्त्र उठा
हुआ था, ऐसे श्रीकृष्णको देख कर उग्रसेनके पुत्र कंसका मुख
उतर गया और वह क्रोधपूर्वक श्रीकृष्णकी ओर देखने लगा ४
अपने हाथमें विराजमान उस हाथीके दाँतके कारण श्रीकृष्ण
अर्धचन्द्रके विम्बसे सटेहुए एक शिखर वाले पर्वतकी समान

यथैकशिखरो गिरिः ॥ ५ ॥ वन्गमाने तु गोविन्दे स कृत्स्नो
रङ्गसागरः । जनौघमतिनादेन पूयमाण इवावभौ ॥ ६ ॥ ततः
क्रोशानिताम्राक्षः कंसः परमकोपनः । चाणूरमादिशत्रुद्धे कृष्णस्य
सुमहाबलम् ॥७॥ अन्ध मन्त्रं च निकृतिं मुष्टिकं च महाबलम् ।
बलदेवाय सक्तो धो दिदेशाद्रिचयोपमम् ॥८॥ कसेनापि समाज्ञत-
श्चाणूरः पूर्वमेव तु । योद्धव्यं सह कृष्णेन त्वया यत्रवतेति वैह
स रोपेण तु चाणूरः कपायी कृतलोचनः । अभ्यावर्तत पुद्गार्थ-
मर्षा पूर्णो यथा घनः ॥ १० ॥ अघुष्टे समाजे तु निश्शब्द-
स्तिमिते जने । यादवास्सहितास्तत्र इदं वचनमब्रुवन् ॥ ११ ॥
वाहुयुद्धमिदं रङ्गे सन्नाशिनकप्रभानरम् । क्रियाबलसमाज्ञातम-
शस्त्रं निर्मितं पुरा ॥१२॥ अद्भिश्चातिश्रमो नित्यं विनेयः काल-
शोभा पाने लगे ॥ ५ ॥ जब श्रीकृष्ण तहाँ पर क्रूद कर पहुँच
गए तब सारा रंगमंच मनुष्योंके समूहके नादसे भर कर शोभा
पाने लगा ॥६॥ तब तो क्रोधके कारण कसके नेत्र लाल ताल
होगए और उस परमक्रोधीने महाबली चाणूरको श्रीकृष्णके
साथ लड़नेकी आज्ञा दी ॥ ७ ॥ फिर उसने क्रोधमें भरे २ ही
अन्धे करने वाले कपटकुशल महाबली मुष्टिकको बलदेवजीके
साथ लड़नेकी आज्ञा दी ॥ ८ ॥ कंसने चाणूरको पहिले ही
आज्ञा दे रखी थी कि तू कृष्णके साथ यत्नके साथ लड़नाह
अत एव रोपके कारण चाणूरके नेत्र कसले होगए तब वह युद्ध
करनेके लिये जलपरे मेवही समान उद्यत होगया १०नव राजाके
“चुप रहो” आज्ञा देने पर समान निःस्तब्ध होगया तब तहाँ
पर बैठे हुए यादुवोंने कहा, कि-११ यह वाहुयुद्ध परीक्षा करके
क्रिया जाता है और निडर पुरुषोंकी जोट इसमें बदी जाती है
और इसकी क्रियाएँ बलसे जानी जाती है तथा यह बिना शस्त्र
के होता है ॥ १२ ॥ कालदर्शी विद्वान् पुरुषोंको इसमें जलसे

दर्शयिः । करीषेण च मन्त्रस्य सततं सत्क्रिया स्मृता ॥ १३ ॥
 स्थितो भूमिगतेनैव यो यथा मार्गतः स्थितः । संयुज्जानत्र पर्यापः
 प्राशिनकैः समुदाहृतः ॥ १४ ॥ बालो वा यदि वा वृद्धो मध्यो
 वापि कुशापि वा । बलस्थो वा स्थितो रंगे ह्येवः कृत्तान्तरेण वै
 बलात्प्रच क्रियानश्न बाहुयुद्धविशारदैः । निपातानन्तरं किञ्चिन्न
 कृतव्यं विज्ञानता ॥ १६ ॥ तदिदं मस्तुतं रंगे युद्धं कृष्णान्ध्र-
 मन्त्रयोः । बालः कृष्णो महान्ध्रः कथं नः स्याद्दिवारणा १७
 ततः किलकिलाशब्दसमाजे समवर्तते । प्रावृत्तान् च गोविन्दो
 वाक्यं वेदमुवाच ह ॥ १८ ॥ अहं बालो महान्ध्रो वपुषा पर्वतो-
 पमः । युद्धं गमानेन सह रोचने बाहुशालिना ॥ १९ ॥ युद्ध-
 व्यतिक्रमः किञ्चिन्न भविष्यति मत्कृतः । न ह्यहं बाहुयोधना

मन्त्रोंका श्रम दूर करना चाहिये और करीपसे मन्त्रोंका सर्वदा
 सत्कार करना चाहिये ॥ १३ ॥ प्राशिनक (परीक्षक) पुरुषोंने
 कहा है कि—“जो जिस मार्ग (पंच) से लड़े उससे उसी मार्गसे
 भूमि पर खड़े र लड़ना चाहिये” ॥ १४ ॥ बालक वृद्ध मध्या-
 वस्थावाले यह बलस्थ होने पर भी रंगमें अपनी कृत्तासमान
 (समानतावाले) से लड़ें ॥ १५ ॥ विद्वान् पुरुष भुजायुद्ध-
 विशारदोंके जोड़ बंद जानेके बाद बल और क्रियामें कर्तव्या-
 कर्तव्यका विचार नहीं करते हैं ॥ १६ ॥ परन्तु अभी तो रंग-
 स्थलमें यही विषय मस्तुत है, कि-कि-श्रीकृष्ण बालक हैं और
 अन्ध्र बड़ा है अतः यह विषय विचारणीय है ॥ १७ ॥ इतनेमें
 ही समाजमें किल किल शब्द होने लगा और गोविन्दने बलांग
 भर कर यह बात कही, कि ॥ १८ ॥ यद्यपि मैं बालक हूँ और
 अन्ध्र शरीरमें पर्वतकी समान हूँ तब भी मुझे इस भुजबलशाली
 से युद्ध करना ही रुचता है १९ और मेरी ओरसे युद्ध रमका कुछ
 उल्लंघन नहीं होगा, बाहुयोधनोंका जो नियम है, मैं उसको

दूषयिष्यामि गन्मगम् ॥ २० ॥ योयं करीषधर्मश्च तोयधर्मश्च
 रंगेनः । कषायस्य च संसर्गः सपयो ह्येष कल्पितः ॥ २१ ॥ संयमः
 स्थिरता शौर्यं व्यायामः सत्क्रिया बलम् । रंगे च नियता सिद्धि-
 रेतद्युद्धविदां पतम् ॥ २२ ॥ अवैरमेवं यद्यं सवैरं कर्तुं मुद्यतः ।
 अत्र वै निग्रहः कार्यस्वोपयिष्याम्यहं जगत् ॥ २३ ॥ करूपेषु प्रमू-
 तोयं चाणूरो नाम नामतः । बाहुयोधी शरीरेण कर्मभिरचाख
 चिन्त्यताम् ॥ २४ ॥ एतेन बहवो मन्त्रा निपातानन्तरं हताः ।
 रङ्गपतापकामेन मन्त्रमार्गश्च दूषितः ॥ २५ ॥ शस्त्रसिद्धिस्तु
 योधानां संग्रामे शस्त्रयोधिनाम् । रङ्गसिद्धिस्तु मन्त्रानां प्रति-

दूषित नहीं करूँगा ॥ २० ॥ गोवरके चूरेका मर्दन जल छिड़कना
 और गेरू आदि लगाना यह अखाड़ेका स्वाभाविक धर्म कहा
 है २१ संयम (एक दूसरेको इटाना), स्थिरता (-न हटना),
 शूरता, व्यायाम (स्थिर होकर भी हाथ पैर चलाना), सत्क्रिया
 (चलाने पर भी मर्मस्थानको न छूना), और बल (सत्क्रिया
 होने पर भी बलही अधिकता) से रंगमें जय नाम वाली सिद्धि
 मिलती है-यह युद्धवेत्ताओंका मत है ॥ २२ ॥ यद्यपि यह (रङ्ग
 धर्म) अवैर है, परन्तु यह (कंस वा चाणूर) इसको सवैर करने
 के लिये उद्यत होगा है, अत एव मैं इसका निग्रह (वध) करूँगा
 और जगत्को सन्तुष्ट करूँगा ॥ २३ ॥ यह करूप देशमें उत्पन्न
 हुआ है और चाणूर नामसे मसिद्ध है, यह भुजाओंसे युद्ध करने
 वाला है, तुम इसके (और मेरे) शरीर तथा कर्मोंका तो विचार
 करो ॥ २४ ॥ इमने बहुतसे मन्त्रोंको रङ्गमें पताप पानेकी इच्छा
 से निपात (गिरने) के अनन्तर भी मार कर अखाड़ेके मार्गको
 दूषित कर दिया है (अर्थात् गिरनेके बाद किसी पहलवानको
 न मारना चाहिये, इस नियमको इसने तोड़ डाला है) २५
 शस्त्रसे युद्ध करने वाले योधाओंकी तो युद्धमें शस्त्रके द्वारा सिद्धि

मन्त्रनिपातजा ॥२६॥ रणे विजयमानस्य कीर्तिर्भवति शाश्वती ।
 इतस्थापि रणे शस्त्रैर्नाकपृष्ठं विधीयते ॥२७॥ रणे ह्युभयतस्सि-
 द्धिर्हतस्येह प्रतोपि वा । सा हि माणान्तिकी यात्रा महद्भिस्साधु-
 पूजिता ॥२८॥ अयं तु मार्गो चलतः क्रियातरच विनिःसृतः ।
 मृतस्य रङ्गे क स्वर्गो जयतो वा कुतो रतिः ॥२९॥ ये तु केचित्
 स्वदोषेण राज्ञः पण्डितमानिनः । प्रतापार्थं इता मन्त्रा मन्त्र-
 हन्तुर्वधो हि सः ॥ ३० ॥ एवं संजल्पतामेव ताभ्यां युद्धं सु-
 दारुणम् । उभाभ्यामभवद्भोरं चारणाभ्यां यथा वने ॥ ३१ ॥
 कृतपतिकृते शिश्नैर्बाहुभिश्च सकंकटेः । सन्निपातावधूतैश्च गमाथो-
 होती है और मन्त्रोंकी युद्धमें जीत तो दूसरे मन्त्रोंको गिरा देने
 से ही होजाती है (फिर उसको न मारना चाहिये) ॥ २६ ॥
 रणमें जीतने वालोंकी शाश्वती (सर्वदा रहनेवाली) कीर्ति होती
 है और यदि वह रणमें शस्त्रोंसे मारा जाता है तो उसको स्वर्ग
 मिलता है ॥ २७ ॥ रणमें दोनों प्रकारसे सिद्धि मिलती है चाहें
 मारा जाय अथवा मार डाले, महापुरुष इस प्राणान्तिकी यात्रा
 की बड़ी प्रशंसा करते हैं ॥ २८ ॥ मैं तो सरल हूँ, मैं तो इससे
 क्रिया (पंच) और चलमें भी कम हूँ, अत एव यह रङ्गमें मारा
 गया तो इसको स्वर्ग नहीं मिलेगा और यह जीत जायगा, तब
 भी इसको कुछ रति नहीं मिल सकती ॥ २९ ॥ इसने पण्डित-
 मानी राजाका प्रताप बढ़ानेके लिये अपने दोषसे जिन मन्त्रोंको
 मार डाला है उनके वधका पाप इस मन्त्रहत्यारे चाणूर्यो ही
 लगेगा ॥ ३० ॥ इस प्रकार बात चीत करते २ ही उन दोनोंमें,
 महावनमें हाथियोंके युद्धकी समान दारुण युद्ध होने लगा ३१
 वे दोनों (कृत) पंच दिखा कर (पतिकृत) पंच काट कर और
 (सकंकटबाहु) भुजाओंसे आलिगन करनेके अनन्तर रोक
 कर (सन्निपात) परस्पर छाती अड़ानेके अनन्तर रुक कर

न्मथनेस्तथा ॥ ३२ ॥ ताद्युधावपि संश्लिष्टौ यथा शैलपथौ तथा
 क्षेपणैर्मुष्टिभिरचैव वराहोद्भूतनिस्स्रवैः ॥ ३३ ॥ कीलवज्र-
 निपातैश्च मसृष्टाभिस्तथैव च । शलाकानखपातैश्च पादोद्भूतैश्च
 दाहणैः ॥ ३४ ॥ जानुभिश्चारमनिघ्नोपैश्शिशरोभ्यां चावघाटितैः ।
 तद्युद्गमनद्वयं घोरमशस्त्रं बाहुतेजसा ॥ ३५ ॥ बाहुप्राणैश्च शूराणां
 समागोरसत्रसन्निधौ । अरज्यत जनस्सर्वस्तोत्कृष्टनिनदोत्थितः ३६
 साधुनादांश्च मञ्जुषु योपगन्त्यपरे जनाः । ततः प्रस्विन्नवदनः
 कृष्णप्रणित्तिनेत्रणः । न्यनारयत तूर्णाणि कंमस्सव्येन पाणिना ३७

(अथभूत) फिर एक दूसरेको धकेल कर (प्रमाथ) भूममें
 गिरा कर (उन्माथ) ऊपरको उधाल कर गिरा कर (युद्ध कर
 ने लगे) ॥ ३२ ॥ फिर गण्डशैलकी समान कठिन दोनों जने
 आपसमें मिल कर क्षेपण मुष्टि और वराहोद्भूत (मूअरकी समान
 दाँगोंके बीचमें घुस गनिपत्नीको दूर फेंक कर) और शब्दरहित
 होकर (युद्ध करने लगे) ॥ ३३ ॥ (तदनन्तर वे दोनों)
 कीलवज्रनिपातोंसे अर्थात् काँइनी और और घुटनोंकी मार देकर
 मसृष्टा करके अर्थात् एक दूसरेकी अंगुलियोंमें अँगुली डाल कर
 और शलाकानखपात करके अर्थात् एक साथ ही हँसलीमें अँगूठेके
 और कोखमें दूसरी अंगुलियोंके मार कर और दाहण पादोद्भूत
 करके अर्थात् तिगड़े पैर फेंक कर शत्रुको उसके स्थान परसे
 चलाभगान करते हुए युद्ध करने लगे ॥ ३४ ॥ फिर जानुओंको
 वज्रकी समान कड़का कर और एक दूसरेके शिरमें शिर मार
 कर वह शस्त्ररहित युद्ध भुजबलसे होने लगा ॥ ३५ ॥ उस
 समाजके उत्सवके पास मनुष्योंको जब यो-याओंके भुजाओं (के
 प्रस्वेद) की गंध आने लगी तब सब जनसमाज मसन्न होगया
 और बह बड़ी गारसे गाग उठा ॥ ३६ ॥ उस समय मञ्जुषों पर
 बैठे हुए बहूतसे मनुष्य शानास २ कहने लगे, उस समय कंसकी

प्रतिपिद्धेषु तूर्णेषु मृदङ्गादिषु तेषु वै । खे संगतान्यवाच्यन्त
 देवतूर्णायनेकशः ॥ ३८ ॥ युद्धयगाने हृषीकेशे पुण्डरीकनिभे-
 क्षयो । स्वयमेव मवाच-त तूर्णघोषास्तु सर्वशः ॥ ३९ ॥ अन्त-
 र्यानिगता देवा विमानैः कामरूपिभिः।चेरुर्विद्याधरैस्सार्द्धं कृष्णस्य
 जयकान्तिणः ॥ ४० ॥ जयस्य कृष्ण चाणूरं दानवं मल्लरूपि-
 णम् । इति सप्तर्षयस्सर्पे ऊचुश्चैव नभो गताः ॥ ४१ ॥ चाणू-
 रेण चिरं कालं क्रीडित्वा देवकीपुत्रः । बलगाहारयापास कंस-
 स्याभात्रदर्शिवान् ॥ ४२ ॥ ततश्चाल वसुधा मञ्चारचैव जुघू-
 र्णिरे । मुकुटाच्चापि कंसस्य पपात मणिरुत्तमः ॥ ४३ ॥ दोभ्यां
 मानभ्य कृष्णस्तु चाणूरं शीर्णजीवितम् । प्राहन्मुष्टिना मूर्ध्नि
 दृष्टि कृष्णकी और लग रहो थी और उसके मुख पर पसीना
 आरहा था, उसने तुरतही अपने दाहिने हाथसे बाजोंके बजानेका
 निषेध कर दिया ॥ ३७ ॥ जब तुरही और मृदंग आदिका बजना
 बंद हुआ, कि-आकाशमें एक साथ देवताओंके बाजे बजने
 आरंभ हो गए ॥ ३८ ॥ कालपत्रान्त श्रीकृष्णके युद्ध करने पर
 सर्वत्र तुरद्विये अपने आप बजने लगी ॥ ३९ ॥ उस समय देवता
 और विद्यारर अपने विमानोंमें बैठ द्विपे २ आकाशमें घूमने
 हुए, श्रीकृष्णकी विजय चाहने लगे ॥ ४० ॥ उस समय आकाश
 में विराजमान सप्तर्षियोंने कहा, कि-हे कृष्ण । आप मल्लरूपी
 चाणूर दानवसे जीतिये ॥ ४१ ॥ कंसके नाशको (समीपमेंही)
 देखने वाले देवकीपुत्रने बहुत समय तक चाणूरके साथ लड़ा
 करनेके अनन्तर अपनेमें बलका समावेश रिया ॥ ४२ ॥ उस
 समय पृथ्वी कोंपने लगी मञ्च भी डगमगाने लगे तथा कंसके
 मुकुटमेंसे भी उत्तम मणि गिर पड़ा ॥ ४३ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्ण
 ने उसको अपने भुजाओंसे दुहरा कर दिया फिर श्रीकृष्णने उठा
 शीर्ण जीवन वाले चाणूरके वज्रःस्थलमें घुसेना देकर उसकी

वनस्याहत्य जानुना ॥ ४४ ॥ निःसृते साश्रुरुधिरं तस्य नेत्रे
 सवन्धने । तापनीये यथा घण्टे कन्नोपरि विलम्बिते ॥ ४५ ॥
 पपात स तु रंगस्य मध्ये निःसृतलोचनः । चाणूरो विगतमाणो
 जीवितान्ते महीतले ॥ ४६ ॥ देहेन तस्य मन्त्रस्य चाणूरस्य
 गतायुषः । सन्निरुद्धो महारंगः सशैलेनेव लक्ष्यते ॥ ४७ ॥ रौहि-
 खेयो हने तस्मिन् चाणूरे बलदर्पिते । जग्राह मुष्टिक रङ्गे कृष्ण-
 स्तोसलकं पुनः ॥ ४८ ॥ सन्निरपाते तु तो मन्त्रौ प्रथमे क्रोध-
 मूर्च्छितौ । समेपातां रामकृष्णौ कालस्य वशवर्तिनौ ॥ ४९ ॥
 निर्घातावनतौ भून्वा रङ्गमध्ये ववन्गतुः । कृष्णस्तोसलामुद्यम्य
 गिरिशृङ्गोपमं वली । भ्रामयित्वा शतगुणं निष्पिपेप महीतले ०
 तस्य कृष्णाभिपन्नस्य पीडितस्य वलीयसः । मुखाद्बुधिरमत्यर्थ-
 खोपडी पर मुष्टिर्घ्न्ये मारीं ॥ ४४ ॥ तव तो उसके नेत्रपिण्ड
 अश्रु और रुधिरके साथ बाहर निकल आये, उस समय वे ऐसे
 पतीत होते थे मानों ड्यौड़ियोंमें सुर्वणके वने हुए गोले लटक
 रहे हों ॥ ४५ ॥ इस प्रकार वह फटी हुई आँखों वाला चाणूर
 जीवनका अन्त होने पर माणहीन हो भूमि पर गिर पड़ा ४६
 उस मरे हुए चाणूरके शरीरसे घिरा हुआ महारङ्ग पर्वतसे भरा
 हुआसा दीखता था ॥ ४७ ॥ बलदेवजीने बलदर्पित चाणूरके
 मारे जाने पर मुष्टिकको पकड़ लिया और कृष्णने दुनारा तोस-
 लक (मन्त्र) को पकड़ लिया ॥ ४८ ॥ वे कालके वशमें हुए
 दोनों मन्त्र पहिली बार दाँव होते ही क्रोधसे मूर्च्छित हो गए ४९
 और प्रशासे पीड़ा पाकर नीचे हो रङ्गमध्ये उद्वल क्रुद करने
 लगे, तब तो वली श्रीकृष्णने उस पर्वतके शिखरकी समान
 आकार वाले तोसलकको सी चार घुमा कर पृथ्वीमें रगड़ना
 धारंभ कर दिया ५० जब उस वली अमुरको श्रीकृष्ण पीड़ा
 देने लगे तब उस मुष्टिकके मुपमेंसे बहुतसा रुधिर निकलने

सुव्रजगाग सुमूर्धतः ॥ ५१ ॥ संकर्षणस्तु सुचिरं योधयित्वा महा-
 वलः । अन्ध्रमल्लं महामल्लो मण्डलानि व्यदर्शयत् ॥ ५२ ॥
 मुष्टिनैकेन तेजस्वी साशनिस्तपिस्नुना । शिरस्यभ्यहनद्वीरो वज्र-
 एव महागिरिम् ॥ ५३ ॥ स निष्पतितमस्तिष्को विसूस्तनयनो
 महान् । पपात निहतस्तेन ततो नादो महानभूत् ॥ ५४ ॥ अन्ध्र-
 तोशलकौ इत्था कृष्णसंकर्षणाबुभौ । क्रोधसंरक्तनयनो रङ्गमध्ये
 ववज्गतुः ॥ ५५ ॥ समाजवाटो निर्मल्लः सोऽभवद्भीमदर्शनः ।
 अन्ध्रे तदा महामल्लो मुष्टिके च निपातिते ॥ ५६ ॥ ये च संप्रेक्षका
 गोपा नन्दगोपपुरोगमाः । भयक्षोभितसर्वाङ्गाः सर्वे तत्रावत-
 स्थिरे ॥ ५७ ॥ हर्षजं वारि नेत्राभ्यां वर्षमाणा मवेपती । मस्य
 वात्पीडिता कृष्णं देवकी समुदैक्षत ॥ ५८ ॥ कृष्णदर्शनजातेन

लगा ५१ उभर महावली संकर्षण जो महा मल्ल थे, उन्होंने बहुत
 देर तक कुश्ती लड़नेके बाद अंध्र मल्लको लड़नेके मण्डल(पैतरे)
 दिखाने आरम्भ कर दिये ५२ तदनन्तर जैसे पर्वत पर वज्र गिरे
 इस प्रकार वीर सङ्कर्षणने अपनी वज्र समान मुट्ठीका उसके
 शिर पर महार किया ५३ तब तो उसका मस्तक लुढ़क गया और
 उसकी आँखें निकल आई इस प्रकार वह बड़ा भारी मल्ल गिर
 पड़ा, तब तो बड़ा दुन्द मचने लगा ५४ अन्ध्र और तोसलकबो
 मारनेके अनन्तर श्रीकृष्ण और वलराम क्रोधसे नेत्रोंको लाल र
 फरके रङ्गके म-भयमें घूमने लगे ५५ जब महा मल्ल अन्ध्र और
 मुष्टिक गिर पड़े तब समाजवाट मल्लशून्य, होगया और उसका
 दृश्य भयंकर होगया ५६ और जो नन्दगोप आदि दर्शक गोप थे, उन
 सबके अंग भयके कारण सुन्न पड़ गए, इस प्रकार वे सब जहाँके
 तहाँ बैठे रहे ५७ इस समय अपने नेत्रोंसे हर्षके आँसू बहाती हुई
 तथा फुरदरी लेती हुई और दूध आनेसे पीड़ित होती हुई देवकी
 भी श्रीकृष्णकी ओर देख रही थी ॥ ५८ ॥ वसुदेवके नेत्र भी

वाष्पेणाकुलितेक्षण वसुदेवो जरां त्यक्त्वा । नेहेन तरुणापतेप्रह
 चारमुष्याथ ताः सर्वाः कृष्णस्य मुखपंकजम् । पपुर्हि नेत्रभ्रमरे-
 निमेपान्तरगाग्निभिः ॥ ६० ॥ कंसस्तान् मुखे स्वेदो भ्रूभेदान्तर-
 गोचरः । अभवद्रोपनिर्यासः कृष्णसन्दर्शनेरितः ॥ ६१ ॥ केश-
 वायसध्रुमेन रोपनिःश्वासवायुना । दीप्तमन्तगर्गतं तस्य हृदयं
 मानसाग्निना ॥ ६२ ॥ तस्य प्रस्फुरितौष्ठस्य स्विन्नालिकतलस्य
 वै । कंसवक्रस्य रोपेण रक्तसूर्यायते वपुः ॥ ६३ ॥ क्रोधरक्ता
 न्मुखात्तस्य निःसृता स्वेदविन्दवः । यथा रविकरस्पृष्टा वृक्षा-
 वश्यायविन्दवः ॥ ६४ ॥ सोज्ञापयत संक्रुद्धः पुरुषान् व्यायतान्
 बहून् । गोपावेतो समाजौघान्निष्क्राम्येता वनेचरौ ॥ ६५ ॥ न
 श्रीकृष्णका दर्शन करके जलसे पूर्ण हो गए और वह स्नेहसे
 तरुण पुरुषकी समान प्रतीत होने लगे ॥ ६६ ॥ और सगस्त
 मुख्य चारंगनाएँ भी निमेपके भीतर चलने वाले अपने नेत्र रूप
 भ्रमरोंसे श्रीकृष्णके मुखपंकजका पान करने लगी ॥ ६० ॥ और
 हे तान् ! कृष्णके देवनेसे प्रेरित कंसके मुख पर भौर्ओंके मध्यमें
 बल पड़नेसे पसीनेके भीतर रोपका ज्वालाकलाप दीखनेलगा ६१
 केशके लिये लोहेकी समान कठिनतारुणी धुँएँ वाली उसके
 मनकी क्रोधाग्निसे और शत्रुका अपहार करनेमें असमर्थतारुणी
 तापात्गरु वायुसे दीप्त उसका मन जलने लगा ॥ ६२ ॥ उस
 समय कंसके श्रोत्र फटकर रहे थे और उसकी नसोंमेंसे पसीना
 निरल रहा था अत एव कंसके मुखके रोपके कारण उसका
 शरीर रक्तसूर्यकी समान दीखने लगा ॥ ६३ ॥ जैसे टुट्टोंके
 पत्तों पर पड़ी हुई ओसकी बूँदें नालसूर्यसे स्पष्ट दीखने लगती
 हैं इसी प्रकार उसके क्रोधके कारण रक्त हुए मुख पर पसीने
 की बूँदें स्पष्ट दीखने लगी ॥ ६४ ॥ तदनन्तर क्रोधमें भरे कंसने
 बहुतसे फैले हुए मनुष्योंको आज्ञा दी, कि इन जड़ली गोपोंका

चैतो द्रष्टुमिच्छामि विकृतीं पापदर्शनम् । गोपानामपि मे राज्ये
 न कश्चित्स्थातुमर्हति ॥ ६६ ॥ नन्दगोपश्च दुर्मैत्राः पापेष्वभिरतो
 मम । आपसभिगडाकारैर्लोहपाशैर्निगृह्यताम् ॥ ६७ ॥ वसुदेवश्च
 दुष्टैस्तो गित्स्त्रं द्वेषकरो मम । अष्ट्रुडाहंण दण्डेन क्षिपमश्चैव शास्त्र-
 ताम् ॥ ६८ ॥ ये चेमे गोकृता गोपा दामोदरपरायणाः । हिनन्तां
 गावपतेषां गच्छास्ति वसु क्षिपन ॥ ६९ ॥ एवमाज्ञापमानं तं
 कंसं परुषभाषिणम् । ददर्शागस्तनगनः कृष्णस्तत्पपराक्रमः ७०
 त्क्षिप्ते गित्स्त्रं चक्रोप नन्दगो च केशवः । ज्ञातीनां च व्यर्था
 दृष्ट्वा विसंजां चैव देवकीम् ॥ ७१ ॥ स सिंह इव वेगेन केशवो
 जानविक्रमः । अरुहन्तुर्महाबाहुः कंसनाशार्थमच्युतः ॥ ७२ ॥ रङ्ग-
 मध्यादुत्पत्तव कृष्णः कंसनाशनान्तिकम् । असज्जद्वायुनाक्षिप्तो

समानमैसे निकाल दो ॥ ६५ ॥ मैं इन पापदर्शन विकृताकार-
 दोनां गोपोंको देखना नहीं चाहता, अब कोई गोप भी मेरे
 राज्यमें न रहे ॥ ६६ ॥ दुर्बुद्धि नन्दगोप भी मुझसे कपटका
 ही बर्ताव करता रहना है अत एव इसको कैद कर इसके पैरोंमें
 लोहेकी वेड़ियें डलवा दो ॥ ६७ ॥ और यह दुर्बुद्ध वसुदेव सदां
 मुझसे द्वेष करता रहता है इस लिये इसको आज ही वृद्ध पुरुषों
 के अयोग्य दण्ड देकर ठीक करना चाहिये ॥ ६८ ॥ और जो ये
 गामूली गोप दामोदरमें परायण रहते हैं, इनकी गौएँ तथा इनका
 जो कुछ धन हो उसको क्षीनलो ॥ ६९ ॥ सत्यपराक्रमी श्रीकृष्णने
 इस प्रकार कठोर भाषण कर आज्ञा देते हुए कंसकी ओर आँखें
 फाड़ कर देखा ॥ ७० ॥ केशव, नन्दगोप और पिता पर आक्षेप
 होने पर और जातिवालोंको व्यथित और देवकीको मूर्खित देख
 कर क्रोधमें भर गए ॥ ७१ ॥ उस समय केशवमें सिंहकी समान
 पराक्रम भर गया और महाभुज कंसका नाश करनेके लिये उस
 पर चढ़ना चाहने लगे ॥ ७२ ॥ तदनन्तर जिस प्रकार वायुसे

यथा खस्थो घनाघनः ॥ ७३ ॥ ददृशुर्न हि तं सर्वं रङ्गमध्याद-
 वल्लुगम् । केवलं कंसपार्श्वस्थं ददृशुः पुरवासिनः ॥ ७४ ॥
 सोपि कंसस्तथायस्तः परीतः कालधर्मणाम् । आकाशदिव गोविन्दं
 मेने तत्रागतं प्रभुम् ॥ ७५ ॥ स कृष्णेनायतं कृत्वा बाहुं परिघ-
 सन्निभम् । मूर्द्धनेषु परामृष्टः कंसो वै रङ्गसंसदि ॥ ७६ ॥ मुकु-
 टश्चापतत्तस्य कांचनो वज्रभूषितः । शिरसस्तस्य कृष्णेन परा-
 मृष्टस्य पाणिना ॥ ७७ ॥ स ग्रहग्रस्तकेशश्च कंसो निर्यत्नतां
 गतः । तथैव च विसम्मूढो वैकन्यं समपद्यत ॥ ७८ ॥ निगृही-
 तश्च केशेषु गतासुरिव निःश्वसन् । न शशाक मुखं द्रष्टुं कंसः
 कृष्णस्य वै तदा ॥ ७९ ॥ विक्रुण्डलाभ्यां कर्णाभ्यां द्विन्न-
 हारेण वन्नसा । प्रलम्बाभ्यां च बाहुभ्यां गात्रैर्विसृतभूषणैः ८०

फैंका हुआ मेघ आकाशमें जहाँ तहाँ पहुँच जाता है, इसीप्रकार
 श्रीकृष्ण भी अखाड़ेमेंसे कूद कर कंसके आसनके पास पहुँच
 गए ७३ सब पुरवासियोंने उनको रङ्गमेंसे उधलते हुए न देखा,
 किन्तु उन्होंने उनको कंसके समीप खड़ा हुआ ही देखा ॥ ७४ ॥
 इधर कंस भी कालधर्मसे दब कर व्याकुल होगया और उसने
 भी प्रभु गोविन्दको आकाशसे उतरा हुआ समझा ॥ ७५ ॥
 इतनेमें ही श्रीकृष्णने अपनी परिघसमान भुजाको लम्बी कर
 सभामें कंसको बाल पकड कर खेंच लिया ॥ ७६ ॥ और जब
 श्रीकृष्णने उसको हाथसे पकडा तब उसका रत्न विभूषित
 मुकुट गिर पडा ॥ ७७ ॥ हाथसे केश पकडनेके कारण कंस कुद
 यल न कर सका और मूढ होकर विकल होगया ॥ ७८ ॥
 केशोंके पकड़े जानेसे कंस कृष्णके मुखको न देख सका और
 मुमूर्षुकी समान ऊर्ध्वश्वास लेने लगा ॥ ७९ ॥ उस समय उसके
 कानोंमेंसे कुण्डल निकल गए और उसके वन्नःस्थलका हार
 द्विन्न भिन्न होगया और उसकी भुजाएँ (ऊपरकी न उठ कर)

भ्रशितेनोचरीयेण सहसागलिताननः । चेष्टमानस्तपाक्षिप्तः कसः
 कृष्णेन तेजसा ॥ ८१ ॥ चरुर्प च महारङ्गे मञ्चशान्निग्रम्भ
 केशवः । केशेषु तं वनाद् गृह्य कंसं क्लेशार्हतां गतम् ॥ ८२ ॥ कृष्ण
 माणस्य कृष्णेन भोगराजो महायुतिः । समाजवाटे परिखां देह-
 कृष्टां चकार ह ॥ ८३ ॥ समाजवाटे कीडित्वा विकृष्य च गता-
 युपम् । कृष्णो विसर्जयामास कसदेहमदूरताः ॥ ८४ ॥ भरण्यां
 मुदितः शिरये तस्य देहस्सुखोचितः । रुमेण विपरीतेन पांसुभिः
 परुषीकृतः ॥ ८५ ॥ तस्य तद्ददनं श्यामं सुप्तात्त मुकुट विना । न
 विभाति विपर्यस्तं विपलाश यथाम्बुजम् ॥ ८६ ॥ असंग्रामहतः

लम्बी २ हो गई, और उनमें वेंधे हुए बाजूबन्द आदि आभूषण
 खुल गए ॥ ८० ॥ उसका दुपट्टा उतर कर दुपट्टेकी लपेटें उसकी
 गर्दनमें पड गई इस प्रकार श्रीकृष्णने अपने तेजसे उसको खेंचा
 था ॥ ८१ ॥ श्रीकृष्णने कसको पकड़ कर मञ्च परसे खेंच लिया
 फिर महारङ्गमें उसे नीचे गिरा कर (उसके ऊपर स्वर्ग चढ़
 कर) उस ज्ञेश देने योग्य बने हुए कसके केशोंको बलपूर्वक पकड़
 उसको खेंचने लगे ॥ ८२ ॥ जब श्रीकृष्ण महाकान्तिपान् भोज
 राजको खेंचने लगे, तब उसके शरीरके खचेड़नेसे समाज वाटमें
 परिखा (खाई) बन गई ॥ ८३ ॥ इस प्रकार श्रीकृष्णने समाज
 वाटमें खेल कर उस गतायुको खेंचनेके अनन्तर उसके देहको
 तहाँ पासमें ही छोड़ दिया ॥ ८४ ॥ उसका सुख भोगने योग्य
 शरीर धूलसे कटा हो मसल जानेके अनन्तर पृथ्वीमें पडा था,
 यह सब विपरीतक्रमसे हुआ था, अर्थात् शर इस प्रकार विना
 युद्ध किये ही नहीं मरते हैं ॥ ८५ ॥ जैसे पत्ते टूटने पर कपल
 शोभा नहीं पाता है, इसी प्रकार उसके मिचे हुए नेत्रा वाले मुकुट
 रहित और (गर्दन टूटनेसे ढोलते हुए) विपर्यस्त और श्याम
 सुखकी शोभा उड गई ॥ ८६ ॥ कंस बाणोंसे न विंध कर संग्राम

कंसस्स बाणैरपरिहृतः । केशवग्राहान्निरस्तासुर्वीरमार्गान्निरा-
 कृतः ॥ ८७ ॥ तस्य देहे प्रकाशन्ते सहसा केशवार्पिताः । मांस-
 च्छदघनास्सर्वे नखाग्रा जीविनच्छिद्रः ॥ ८८ ॥ तं इत्वा पुण्डरी-
 कान्तः प्रहर्षाद् द्विगुणपथः । ववन्दे वसुदेवस्य पादौ निहतकण्टकः
 मातुश्च शिरसा पादौ निपीडय यदुनन्दनः । सा सिञ्चत्प्रसवो-
 त्पीडैः कृष्णमानन्दनिःसृतैः ॥ ९० ॥ यादवार्चैव तान् सर्वान्
 यथास्थानं यथावयः । पप्रच्छ कुशलं कृष्णो दीप्यमानः स्व-
 तेजसा ॥ ९१ ॥ बलदेवोऽपि धर्मात्मा कंसभ्रातरमूर्जितम् ।
 बाहुभ्यामेव तरसा सुनामानमपोथयत् ॥ ९२ ॥ तौ जितारी जित-

के विना ही मारा गया था, बाल पकड़नेसे उसके प्राण निकल
 गए थे इस लिये वह वीरमार्गसे बढ़कर होगया था (अर्थात्
 स्वर्ग और कीर्ति वीरमार्ग है, वह उन दोनोंसे भ्रष्ट होगया था) ८७
 (तब भी उसकी असह्यगति नहीं हुई यह दिखाते हैं, कि—) उस
 के देहमें सहसा केशवके मारे हुए जीवनका उच्छेद करने वाले
 मांसके लोड्ढोंसे घन (श्याम) नाखूनोंके निशान दीख रहे
 थे ॥ ८८ ॥ उसको मारनेके कारण गिनकी कांति दुगनी होरही
 थी ऐसे श्रीकृष्णने निष्कण्टक हो हर्षके साथ वसुदेवके चरणोंमें
 प्रणाम किया ॥ ८९ ॥ फिर यदुनन्दनने शिर झुका कर पाताके
 चरणोंमें प्रणाम किया तब हर्षके कारण उसके स्तनों दुग्ध आगया
 और उस दुग्धके टपकनेसे श्रीकृष्ण नहा गए ॥ ९० ॥ तदनन्तर
 अपने तेजसे दिपते हुए श्रीकृष्णने और २ यादवोंसे सम्बंध और
 अवस्थाके अनुसार कुशलसमानार वृत्ता ॥ ९१ ॥ धर्मात्मा बल-
 देवने भी कंसके बलान् भाई सुनागाको भुजाओंके बलसे ही
 मार डाला (यह कंसका भाई द्रुमिलसे उत्पन्न हुआ था और
 कंसका मित्र होनेसे उसका भाई कहलाता था, परन्तु उग्रसेनका
 पुत्र नहीं था) ॥ ९२ ॥ तदनन्तर शत्रुओंको जीतनेके अनन्तर

क्रोधो विरविप्रोपितो व्रजोऽस्वपितुर्भवनं वीरो जग्मतुर्हृष्टमानसो ६३
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि कंस-
वधो नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

वैशम्पायन उवाच । भर्तारं पतितं दृष्ट्वा क्षीणपुण्यमिव
ग्रहम् । कंसपत्न्यो हतं कंसं समन्तात् पर्यवारयन् ॥१॥ तं मही-
शयने सुप्तं क्षितिनाथं गतायुषम् । भार्यास्म दृष्ट्वा शोचन्ति मृग्यो
मृगपतिं यथा ॥ २ ॥ हां इतास्म महाबाहो हताशा इत-
वान्धवाः । वीरपत्न्यो हते वीरे त्वयि वीरव्रतप्रिये ॥३॥ इमाम-
वस्थां पश्यन्त्यः पश्चिर्मां तव नैष्टिकीम् । कृपयं राजशार्दूल
विलापामस्तवान्धवाः ॥४॥ द्विन्नमूलास्स संवृत्ताः परित्यक्ता-
स्त्वया विभो । त्वयि पञ्चत्वमापन्ने नाथेस्माकं महाबले ॥५॥
को नः कोपपरीताङ्गी रतिसंसर्गलालसाः । लता इव विचेष्टन्ती-

जिनका क्रोध शान्त होगया था, ऐसे व्रजप्रवासी बलराम और
श्रीकृष्ण प्रसन्नमनसे अपने पिताके भवनको चलने लगे ॥ ६३ ॥
तीसवाँ अध्याय समाप्त ३०

वैशम्पायनजीने कहा, कि पुण्य क्षीण होने पर गिरे हुए
नक्षत्रकी समान स्वामीको गिरा हुआ देख कर कंसकी पत्निपौने
मरे हुए कंसको चारों ओरसे घेर लिया १ जैसे हिरनयें मृगपति
का शोक करती हैं, इसी प्रकार पृथिवीकी शय्या पर शयन करते
हुए पृथिवीनाथको गतायु देख कर उसकी भार्याएँ शोक करने
लगीं २ हा ! महाबाहो! हम वीरपत्नियें वीरव्रतको भिष समझने
वाले तुम्हारे मारे जानेसे मारी गईं, हम सहसा बांधवहीन हो
गईं हैं ३ हेराजशार्दूल ! आपकी इस पिडली भ्रष्टावस्थाको
देख कर हम बांधवों सहित कृपणता(दीनता)से विलाप कर रही
हैं ४ हे भियो ! तुम्हारे त्यागनेसे हम जड़कटी सी हो गईं हैं,
हे नाथ ! आप महाबली थे, आपके मारे जाने पर ५कोपसे व्याप्त

कंसस्स बाणैरपरिचतः । केशग्राहान्निरस्तासुर्वीरमार्गान्निरा-
 कृतः ॥ ८७ ॥ तस्य देहे प्रकाशन्ते सहसा केशवार्पिताः । मांस-
 च्छदघ्ननास्सर्वे नखाग्रा जीविनच्छिद्रः ॥ ८८ ॥ तं इत्वा पुण्डरी-
 कान्तः प्रहर्षाद् द्विगुणपथः । ववन्दे वसुदेवस्य पादौ निहतकण्टकः
 मातुश्च शिरसा पादौ निपीडय यदुनन्दनः । सा सिञ्चत्प्रस्रवो-
 त्पीडैः कृष्णमानन्दनिःसृतैः ॥ ९० ॥ यादवार्चवैव तान् सर्वान्
 यथास्थानं यथावयः । पप्रच्छ कुशलं कृष्णो दीप्यमानः स्व-
 तेजसा ॥ ९१ ॥ बलदेवोऽपि धर्मात्मा कंसभ्रातरमूर्जितम् ।
 बाहुभ्यामेव तरसा सुनामानमपोथयत् ॥ ९२ ॥ तौ जितारी जित-

के बिना ही मारा गए था, बाल पकड़नेसे उसके प्राण निकल
 गए थे इस लिये वह वीरमार्गसे बहिकृत होगया था (अर्थात्
 स्वर्ग और कीर्ति वीरमार्ग है, वह उन दोनोंसे भ्रष्ट होगया था) ८७
 (तब भी उसकी असद्गति नहीं हुई यह दिखाते हैं, कि—) उस
 के देहमें सहसा केशवके मारे हुए जीवनका उच्छेद करने वाले
 मांसके लोड़्योंसे घन (श्याम) नाखूनोंके निशान दीख रहे
 थे ॥ ८८ ॥ उसको मारनेके कारण गिनकी कांति दुगनी होरही
 थी ऐसे श्रीकृष्णने निष्कण्टक हो हर्षके साथ वसुदेवके चरणोंमें
 प्रणाम किया ॥ ८९ ॥ फिर यदुनन्दनने शिर झुका कर माताके
 चरणोंमें प्रणाम किया तब हर्षके कारण उसके स्तनों दुग्ध आगया
 और उस दुग्धके टपकनेसे श्रीकृष्ण न्हा गए ॥ ९० ॥ तदनन्तर
 अपने तेजसे दिगते हुए श्रीकृष्णने और २ चादवोंसे सम्बंध और
 अवस्थाके अनुसार कुशलसमाचार वृत्त ॥ ९१ ॥ धर्मात्मा बल-
 देवने भी कंसके बलवान् भाई सुनामाको भुजाओंके बलसे ही
 मार डाला (यह कंसका भाई द्रुमिलसे उत्पन्न हुआ था और
 कंसका मित्र होनेसे उसका भाई कहलाता था, परन्तु उग्रसेनका
 पुत्र नहीं था) ॥ ९२ ॥ तदनन्तर शत्रुओंको जीतनेके अनन्तर

क्रोधो चिरविप्रोपितो ब्रजेऽस्वपितुर्भवनं वीरौ जगत्तुर्हृष्टमानसौ ६३
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि कंस-
वधो नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

वैशम्पायन उवाच । भर्तारं पतितं दृष्ट्वा क्षीणपुण्यमिव
ग्रहम् । कंसपत्न्यो इतं कंसं समन्तात् पर्यवारयन् ॥१॥ तं मही-
शयने सुप्तं क्षितिनाथं गतायुषम् । भार्यास्म दृष्ट्वा शोचन्ति मृग्यो
मृगपतिं यथा ॥ २ ॥ हा इतास्म महावाहो इताशा इत-
वान्धवाः । वीरपत्न्यो इते वीरे त्वयि वीरव्रतप्रिये ॥३॥ इमाम
घस्थां पश्यन्त्यः पश्चिर्मा तव नैष्टिकीम् । कृपणं राजशार्दूल
विलगामस्सयान्धवाः ॥४॥ छिन्नमूलास्स संवृत्ताः परित्यक्ता-
स्त्वया विभो । त्वयि पञ्चत्वमापन्ने नाथेस्माकं महाबले ॥५॥
को नः कोपपरीताङ्गो रतिसंसर्गलालसाः । लता इव विचेष्टन्ती-

ग्निनका क्रोध शान्त होगया था, ऐसे ब्रजमवासी चलराम और
श्रीकृष्ण प्रसन्नमनसे अपने पिताके भवनको चलने लगे ॥ ६३ ॥
तीसवाँ अध्याय समाप्त ३०

वैशम्पायनजीने कहा, कि पुण्य क्षीण होने पर गिरे हुए
नक्षत्रकी समान स्वामीको गिरा हुआ देख कर कंसकी पत्नियोंने
मरे हुए कंसको चारों ओरसे घेर लिया १ जैसे हिरनिये मृगपति
का शोक करती हैं, इसी प्रकार पृथिवीकी शय्या पर शयन करते
हुए पृथिवीनाथको गतायु देख कर उसकी भार्याएँ शोक करने
लगी २ हा ! महावाहो! हम वीरपत्नियें वीरव्रतको मिय समझने
वाले तुम्हारे मारे जानेसे मारी गई, हम सहसा बांधवहीन हो
गई हैं ३ हेराजशार्दूल ! आपकी इस पिछली भ्रष्टावस्थाको
देख कर हम बांधवों सहित कृपणता(दीनता)से विलाप कर रही
हैं ४ हे विभो ! तुम्हारे त्यागनेसे हम जड़कटी सी हो गई हैं,
हे नाथ ! आप महाबली थे, आपके मारे जाने पर हमकोपसे व्याप्त

शयनीयानि नेष्यति ॥ ६ ॥ इदं ते सदृशं सौम्य हृद्यनिश्वास-
मारुतम् । दहत्यर्को मुखं कान्तं निस्तोगमिव पंकजम् ॥ ७ ॥ इमे
ते श्रवणे शून्ये न शोभेते विकुण्डले । शिरोधरायां संलीने सततं
कुण्डलमिवे ॥ ८ ॥ वच ते स मुकुटो वीर सर्वरत्नविभूषितः ।
अत्यर्थं शिरसो लक्ष्मीं यो दधारार्कसमभाम् ॥ ९ ॥ अनेन हि
कलत्रेण तवान्तःपुरशोभिना । कथं दीनेन कर्त्तव्यं त्वयि लोका-
न्तरं गते ॥ १० ॥ ननु नाम स्त्रियस्ताड्यः प्रियभोगेष्वञ्जिताः ।
पतीनामपरित्याज्यास्तस्त्वं नस्त्यज्य गच्छसि ॥ ११ ॥ अहो
कालो महावीर्यो येन पर्यायकर्मणा । कालतुल्यस्तपत्नानां त्वं
क्षिप्रमपनीयसे ॥ १२ ॥ वयं दुःखेष्वनुचितास्सुखेष्वेव त्वयै-

अहो वाली, परन्तु रति लालसा वाली और कोपके कारण
लताकी समान कौपती हुई हृदयको पर्यकों पर कौन लेजावेगा ६
हे सौम्य ! तुम्हारी हृदयस्थ श्वासवायु तुम्हारे अनुकूल ही
(सौम्य) थी, हा ! अब तुम्हारे सुन्दर मुखको, सूर्य जलरहित
कमलकी समान, जला रहा है ७ सर्वदा कुण्डलोंसे प्रिय लगने वाले
तुम्हारे यह गर्दन पर पड़े हुए दोनों कान कुण्डलरहित होनेसे
शोभाशून्य होरहे हैं ८ हे वीर ! सर्वरत्नोंसे विभूषित अत एव
सूर्यकी समान अधिकतर दिपाने वाला तुम्हारा वह मुकुट कहाँ
गया ? ९ जो तुम्हारी स्त्रियें रनवासमें फिर कर शोभा बढ़ाती
वे अब तुम्हारे परलोकको चले जानेके कारण दीन हो गई हैं,
अब वे क्या करें ? १० जो साध्वी पतिके भोगके समय निष्कपट हो
कर यतीव करती हैं उनको पति त्यागा नहीं करते हैं तो भी तुम
देवने छोड़ कर कैसे जा रहे हो ? ११ अहो ! काल बड़ा बली है,
मार डार वह अपने लोभके कर्म करके शत्रुओंको काल समान
कंसका भिने तुमको भी जन्दीसे उठा कर लिये जाता है १२ हम
पुत्र नहीं था प्राग्य नहीं है और तुमने हमें लाड़से रक्खा था, हे

विताः । कथं वत्स्याम विधवा नाथ कार्पण्यमाश्रिताः ॥ १३ ॥
 स्त्रीणां चारित्र्यलुब्धानां पतिरेकः परा गतिः । त्वं हि नस्सा गति-
 शिञ्जना कृतान्तेन वलीगसा ॥ १४ ॥ नैधव्येनाभिभूतास्म शोक-
 सन्तप्तपानसाः । रोदितव्यहृदे मग्नाः क्व गच्छामस्त्वया विना १५
 सह त्वया गतः कालस्त्वदंके क्रीडितं कृतम् । क्षणेन त्वद्विही-
 नास्म अनित्या हि नृणां गतिः ॥ १६ ॥ अहो वलविपीनास्म
 विपन्ने त्वयि मानद । एकदुष्कृतकारिणस्सर्वा नैधव्यलक्षणाः १७
 त्वया स्वर्गप्रतिच्छन्दैर्लालितास्म रतिप्रियाः । त्वयि कामवशा-
 स्सर्वाः स नस्त्यज्य क्व गच्छसि ॥ १८ ॥ अस्माकं त्वमनाथानां
 नाथो ह्यसि सुरोपम । आसां विलपमानानां कुररीणामिव प्रभो ।
 प्रतिवाक्यं जगन्नाथ दातुमर्हसि मानद ॥ १९ ॥ एवमार्तकल-

नाथ ! अब हम विधवा होकर दीनतासे कैसे रहेगी १३ चरित्रसे
 प्रेम करने वाली स्त्रियोंकी एक पति ही गति है, परन्तु वलवान
 यमराजने उस हमारी एक गति तुमको भी काट डाला १४ हम
 विधवा होनेसे तिरस्कृत हारही हैं और हमारा हृदय शोकसे जला
 जारहा है, हम रोनेके समुद्रमें डूब रही हैं, आपके बिना हम कहाँ
 जाँय १५ हमारा समय तुम्हारे साथ बीतता था, तुम्हारी गोदी
 में हमने क्रीड़ा की थी, परन्तु हम अब क्षण भरमें तुमसे छूट गई
 हा ! मनुष्योंकी गति अनित्य है १६ हे सत्कार करने वाले !
 तुम्हारे विपत्तिमें पड़ने पर हमारा सब बल जाता रहा, हम सबों
 ने एकसा ही पाप किया होगा, इसी लिये हम सबको विधवा-
 पनका चिन्ह धारण करना पड़ा है १७ हम रतिप्रिय स्त्रियोंको
 आपने स्वर्गकी समान सुख दिये थे, हम सब तुम्हारी इच्छानुसार
 चलती थी, अब तुम हमें क्यों छोड़ कर कहीं जाते हो १८ हे
 देवताकी समान ! तुम हम अनाथनिर्षोंके नाथ हो हे प्रभो ! हम
 कुररीकी समान विलोप करती हुई अपनी स्त्रियोंको तुम कुछ

त्रस्य शाम्यमानेषु बन्धुषु । गमनं ते महाभाग दारुणं प्रतिभाति
 नः ॥२०॥ नूनं कान्तवराः कान्त परलोके वरस्त्रियः । यतस्त्वं
 प्रस्थितो वीर विहायेमं गृहे जनम् ॥ २१ ॥ किं नु ते कारणं
 वीर भार्यास्वेतासु भूरिद । आर्तनादं रुदन्तीषु यन्मोहान्नाव-
 बुध्यसे ॥ २२ ॥ अहो निष्करुणा यात्रा नराणामोर्ध्वदेहिकी ।
 यत्परित्यज्य दारान्त्स्वान्निरपेक्षा व्रजन्ति हि ॥२३॥ अपतित्वं
 स्त्रियाश्श्रेयो न तु शूरः पतिः स्त्रिया । स्वर्गस्त्रीणां प्रियाश्शूरा
 स्तेषामपि च ताः प्रियाः ॥२४॥ अहो क्षिप्रमदृश्येन नयता त्वां
 रणमियम् । प्रहृतं नः कृतान्तेन सर्वासामन्तरात्मसु ॥२५॥ इत्वा
 जरासन्धवलं जित्वा यत्क्षिच संयुगे । कथं मानुषमात्रेण हतस्त्वं
 जगतीतले ॥ २६ ॥ इन्द्रेण सह संग्रामं कृत्वा सायकविग्रहम् ।

उत्तर तो दो! १९ आपके कलत्रवर्गके बान्धवोंके शान्त होजाने पर
 हे महाभाग ! आपका भी चला जाना हमें बड़ा दारुण लगता
 है २० हे कान्त ! परलोककी श्रेष्ठ स्त्रियों तुम्हें अधिक प्रिय हैं
 इसे लिये तुम घरमें हमको छोड़कर प्रस्थान कर रहे हो २१ हे
 वीर ! क्या कारण है कि-तुम अपनी भार्याओंके आर्तनाद करके
 रोने पर भी मोहवश कुछ नहीं समझते ॥ २२ ॥ अरे ! पुरुषों
 की और्ध्वदेहिकी यात्रा बड़ी निष्करुण होती है, कि-वेअपनी
 स्त्रियोंको त्याग कर निरपेक्ष होकर चले जाते हैं ॥ २३ ॥
 स्त्रीका पतिविहीन होना अच्छा, और शूरपतिकी पत्नी
 होना अच्छा नहीं, क्योंकि-शूर पुरुष स्वर्गकी स्त्रियोंके प्यारे
 होते हैं और वे भी उनको प्यारी होती हैं ॥ २४ ॥ अहो !
 अदृश्य रह शीघ्रतासे तुम रणमियको लेजाने वाले कालने हम
 सबकी अन्तरात्मा पर प्रहार किया है २५ तुमने युद्धमें यत्नोंको
 और जरासन्धकी सेनाको भी जीत लिया था, फिर तुम पृथ्वीमें
 मनुष्यसे ही क्यों मारे गए २६ तुम चाणोंसे इन्द्रके साथ संग्राम

नराधिप ॥ ३४ ॥ अहो वीर कथं शोणे निषण्णस्तृणपांसुषु ।
शयानस्य हि ते भूमौ कस्मान्नोद्विजते वपुः ॥ ३५ ॥ केन सुप्त-
महारोग्यं दत्तोस्मान्मृतकितः । प्रदत्तं केन सर्वार्थं नारीष्वेवं
घृदारुणम् ॥ ३६ ॥ रुदितानुशयो नार्या जीवन्त्याः परिदेवनम् ।
किं वर्या सति गन्तव्ये सह भर्त्रा रुदामहे ॥ ३७ ॥ एतस्मिन्नन्तरे
दीना कंसमाता प्रवेगती । क मे वत्सः क्व मे पुत्र इति रोख्यती
भृशम् ॥ ३८ ॥ सागश्यन्निहतं पुत्रं निष्प्रभं शशिर्न यथा । हृद-
येन विदीर्णेन भ्राम्यमाणा पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ पुत्रं समभि-
वीक्षन्ती हा हातास्मीति वाशती । स्नुपाणामार्तनादेन विललाप
रुरोद च ॥ ४० ॥ सा तस्य वदनं दीनमुत्सङ्गे पुत्रवृद्धिनी । कृत्वा
पुत्रेति काट्यं विललापार्तया गिरा ५ पुत्र शूरव्रते युक्त ज्ञातीनां

कर दीजिये और हे राजन् ! लौट आइये ३४ अहो वीर ! आप
तृण और मूलपे लोटकर कैसे सोरहे हैं, भूमिमें सोनेपर भी
आपका शरीर क्यों नहीं अकुलाता है ॥ ३५ ॥ अरे रे ! यह
सोते २ हफ पर किसने अतर्कित महार कर डाला अरे ! उस
प्रकार सब नारियोंके साथ किसने दारुण बर्ताव किया है ३६
अरे ! जीवित रहने वाली नारीका विलाप अन्तःकरणका रोगा
हुआ करता है अरे ! हमें तो भर्तके साथ ही जाना चाहिये था,
फिर भी हम क्यों रो रहे हैं ॥ ३७ ॥ इतनेमें ही कंसकी माता
कौपनी २ नेहाँ आई और मेरा पुत्र कहाँ है ? मेरा वत्स कहाँ
है ? उस प्रकार कह कर जोरसे रोने लगी ॥ ३८ ॥ तब उसने
निष्प्रभ लु व भू ३० न अपने पुत्रको मरा हुआ देखा तद-
गन्तर खन्द्रमाती समा ३१ लगर घूमने लगी ३९ वह पुत्रको
सबकी बह जिदीर्ण हृदयसे इ ३० कहे पुत्रवधुओंके विलापको
देव करे हाय ! मैं मारी गई क्या ? कह पुत्रवधुओंके विलापको
सुन कर और भी रोने लगी ४० उस पुत्रको चाहने वालीने
अपने पुत्रके दीन मुग्धको अपनी गोदीमें धर लिया और हा

नन्दिबद्धं न । किमिदं त्वरितं वत्स मस्थानं कृतवानसि ॥४॥
 मसुप्ताश्चानिविद्यते किं पुत्र निगमं विना । वत्सा नैवंविधा भूपौ
 शेरते कृतलक्षणाः ॥ ४३ ॥ रावणेन पुरा गीतरश्लोकोयं साधु-
 सम्मतः । बलज्येष्ठेन लोनेषु राज्ञसानां समागमे ॥ ४४ ॥ एव-
 मूर्जितवीर्यस्य मम देवनिधातिनः । बान्धवेषु भयं घोरं दुर्नि-
 वार्यं भविष्यति ॥४५॥ तथैव ज्ञातिलुब्धस्य मम पुत्रस्य धीमताः ।
 ज्ञातिभ्यो भयमुत्पन्नं शरीरान्तकरं महत् ॥४६॥ सा पतिं भूपतिं
 वृद्धमुग्रसेनं विचेतसम् । उवाच रुदती वाक्यं विवत्सा हरिणी
 यथा ॥४७॥ एतेहि राजञ्छुद्धात्मन्पश्य पुत्रं जनेश्वरम् । शयानं
 वीरशयने बभ्रादाभिवाचलम् ॥४८॥ अस्य कुमो महाराज निर्याण

पुत्र ! कह कर आर्तवाणीमें विलाप करने लगी ४१ हे शूरव्रतका
 पालन करने वाले पुत्र ! हे जातिवालोंके आनन्दको बढ़ाने वाले !
 हे वत्स ! तूने शीघ्रतासे मस्थान क्यों कर दिया ॥ ४२ ॥
 हे पुत्र ! तू नियमको त्याग कर खुले हुए स्थानमें क्यों सो रहा
 है हे वत्स ! ऐसे कृतलक्षण पुरुष भूमिमें नहीं सोते हैं ॥ ४३ ॥
 पहिले लोकोंसे बलमें बढ़े हुए रावणने राज्ञसोंके समागमें ग्रह
 सत्पुरुषोंका माना हुआ श्लोक ठीक ही कहा था कि ॥ ४४ ॥
 “मैं देवताओंको दवाने वाला हूँ और परमपराक्रमी हूँ तब भी
 मुझे बंधनोंसे घोर दुःख मिलेगाः” ॥ ४५ ॥ इसी प्रकार जाति
 वालोंसे प्रेम करने वाले मेरे बुद्धिमान् पुत्र पर भी जाति वालोंसे
 ही प्राणान्तकारी घोर दुःख भोगना पड़ा है ॥ ४६ ॥ तदनन्तर उस
 ने अपने अचेत पड़े हुए वृद्ध पति राजा उग्रसेनसे मृगशावकरहित
 हरिणीकी समान विलाप करते हुए यह कहा, कि- ॥ ४७ ॥ हे
 शुद्धात्मन राजन् ! आइये ! आइये और वज्रसे मारे हुए पर्वतकी
 समान वीरशय्या पर शयन करते हुए अपने पुत्रको देगिये ४८
 हे महाराज ! अब आपको इसने घरसे निकाल कर शयान में

सहर्षां क्रियाम् । प्रेतत्वमुपपन्नस्य गतस्य यमसादनम् ॥४६॥
 वीरभोग्यानि राज्यानि वयं चापि पराजिताः । गच्छ विद्याप्यतां
 कृष्णः कंससत्कारकारणात् ॥५०॥ मरखान्तानि वीराणि शान्तं
 शान्तिर्भविष्यति । मेतकार्याणि कार्याणि मृतः किमपराध्यते ५१
 एवमुक्त्वा पतिं भोजं केशानारुज्य दुःखिताः पुत्रस्य सुखपीनन्ती
 विललापैव सा भृशम् ॥ ५२ ॥ इमास्तं किं करिष्यन्ति भार्या-
 राजन्सुखोपिताः त्वां पतिं सुपतिं प्राप्य या विपन्नमनोरथाः ५३
 इमं ते पितरं वृद्धं कृष्णस्य वशवर्तिनम् । कथं द्रक्ष्यामि शुष्यन्तं
 कासारसलिलं यथा ॥ ५४ ॥ अहं ते जननी पुत्र किमर्थं नाभि-
 भापसे । मस्थितो दीर्घमध्वानं परित्यज्य मियं जनम् ॥ ५५ ॥

लेजानेकी क्रिया करनी चाहिये, क्यों कि-यह मर गया है और
 यमसादनको प्राप्त होगया है ॥ ४६ ॥ इस राज्यको अब वीर
 पुरुष भोगेंगे, हमारा तो परानप होचुका अब तुम कंसका सत्कार
 करनेके लिये श्रीकृष्णसे कह कर आज्ञा ले आओ ॥ ५० ॥
 (और कहना कि-) वैर मरण होने पर समाप्त होजाता है अब
 एव उसके शान्त होने पर आपको शान्त होजाता चाहिये अब
 यह मरा हुआ कंस आपका क्या विगाड़ कर सकता है अतः
 अब आप हमें मेतकार्य करनेकी आज्ञा दीजिये, ॥ ५१ ॥
 वालोको खेच कर दुःखित होती हुई वह देवी इस प्रकार अपने
 पतिसे कह पुत्रके सुखकी प्रीति देख परम विलप करने लगी,
 कि-॥ ५२ ॥ हे राजन् ! ये सुखमें पली हुई भार्यायें तुमसे सुपति
 को पानेके अनन्तर भी मनोरथ विफल होनेसे अब क्या करेंगी ५३
 हाय ! तेरे वृद्ध पिता कृष्णके वशमें हो गव मूवते हुए सरोवर
 के जलकी समान मूवने लगेंगे, तो मैं उनकी ऐसी दशाको कैसे
 देखूंगी ॥ ५४ ॥ मैं तेरी माता हूँ, तब भी हे पुत्र तू मुझसे क्यों
 नहीं बोलता है? (हां ! तू बोलते कैसे !) तू तो अपने पिय

अहो व राज्यभाग्यायाः कुनान्तेनाभिर्वर्तिना । आच्छिद्य पप
सन्दायो नीपसे नयकोगिदः ॥ ५६ ॥ दानमानमृदीतानि वृत्ता-
न्येतानि तैर्गुणैः । रुदन्ति तव भृत्यानां कुलानि कुलयूथप ५७
उत्तिष्ठ नरशार्दूल दीर्घबाहो महाबल । त्राहि दीनं जनं सर्वं पुर-
गन्तः पुरं यथा प्ररुदतीनां भृशार्तानां कंसस्त्रीणां सुविस्तरम् ।
जगामास्तं दिनकरः । सन्ध्यारागेण रञ्जितः ॥ ५६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि कंसस्त्री-

विलापो नामैकत्रिंशोऽध्यायः ॥३१॥

वैशम्पायन उवाच । उग्रमेनस्तु कृष्णस्य समीपं दुःखितो
ययौ । पुत्रशोकाभिसन्तप्तो विषपीत इव रजसन् ॥ १ ॥ स ददर्श
गृहे कृष्णं यादवीः परिवारितम् । पथानुनापाङ्क्यागन्तं कंसस्य
निषनाविलम् ॥ २ ॥ कंसनागीनिलापांश्च श्रुत्वा स करुणा-

वान्गोंको त्याग कर लाने वागसे चला गया है ॥ ५५ ॥ अहो
जीर ! मैं बड़ी मन्दवाग्य हूँ, कि-काल मेरा तिरस्कार कर तुझसे
शास्त्रचतुर मुझको (भोजन) देने वालेको भी काट कर लिये
जाता है ॥ ५६ ॥ हे कुलयूथप ! तूने जिनको दान देकर और
जिनका सत्कार करके अपने यहाँ रखवा था ऐसे तेरे भृत्योंके
कुल ये (सामने खड़े) रोरहे हैं ५७ हे नरशार्दूल ! तू उठ और
हे महाभुज ! महाबल ! इन सब दीनजनोंकी और नगरकी अन्तः-
पुरकी सभान रक्षा कर प्ररुद कंसकी मित्रियोंके आर्त होकर बड़ा
भारी विलाप करते २ ही संध्याका लालिमासे रंजित सूर्य अस्त
होगया ५६ इकतीसवाँ अध्याय समाप्त ३१

वैशम्पायनजीने कहा, कि-तदनन्तर पुत्रशोकसे सन्तप्त उग्रसेन
विष खा लेने, वालेकी सभान साँस भगते हुए श्रीकृष्णके पास
दुःखित होते हुए पहुँचे । तहाँ उन्होंने श्रीकृष्णको यादवीसे घिरा
हुआ देखा वे कंसके मारनेका पश्चात्ताप कर रहे थे - वे कंस

न्वहन् । गर्हेमाणं तथात्मानं तस्मिन् यादवसंसदि ॥ ३ ॥ अहो
 मयातिबाल्येन रोपाद्दोषानुवर्तिना । वैधव्यं स्त्रीसंहस्राणां कंस-
 स्यास्य वधे कृतम् ॥ ४ ॥ कारुण्यं खलु नारीषु माकृतस्यापि
 जायते । एवगार्तं रुदन्तीषु मया भर्तारि पातिते ॥ ५ ॥ परिदेवित-
 गात्रेण शोकः खलु विधीयते । कृतान्तस्यानभिज्ञानां स्त्रीणां
 कारुण्यसम्भवः ॥ ६ ॥ कंसस्य हि वधश्चेयान् प्रागेवाभिमतो
 मम । सतामुद्रेजनीयस्य पापेष्वभिरतस्य च ॥ ७ ॥ लोके पतित-
 धृत्तस्य पुरुषस्याल्पमेतसः । अक्लिष्टं गरुणं श्रेयो न विद्विष्टस्य
 जीवितम् ॥ ८ ॥ कंसः पापरतश्चैव साधूनामप्यसम्मतः । धिक्-
 शञ्चपतितश्चैव जीविते चास्य का दया ॥ ९ ॥ स्वर्गे तपोभृतां

की स्त्रियोंके बहुतसे करुणोत्पादक विलापोंको सुन कर यादवोंकी
 सभामें अपनी निन्दा कर रहे थे ३ अहो ! मैंने अति बालकपनसे
 रोपपूर्वक दूषितमार्गका अत्रलम्बन करके कंसका वध करके
 सहस्रों स्त्रियोंको विधवा बना दिया है ४ साधारण मनुष्योंको
 भी नारियों पर करुणा आजाती है, मैंने इनके भर्तारोंको मार डाला
 है इस लिये यह आर्त होकर रो रही है ५ अब इनके रोनेसे शोक
 ही बढ़ना है, यमराज इन स्त्रियोंको नहीं जानते यदि यमराज इन
 को दिलपती देख लें तो यमराजको भी दया आजाय ६ कंसका
 तो मारा जाना ही अच्छा था, उस बातको तो मैं पहिलेसे ही
 चाहता था, क्यों कि-वह सज्जनोंको उद्विग्न करता रहता था
 और पापकर्मोंमें परायण रहता था, ७ उसका आचरण लोकमें
 निन्दित था और वह अन्धबुद्धि कठोरतासे बर्तान किया करता
 था, ऐसे पुरुषका बिना क्रेश पाये मर जाना ही अच्छा है, विद्वेषी
 पुरुषका जीवित रहना अच्छा नहीं है ८ कंस पापमें संलीन रहता
 था और साधु पुरुष उसका सम्मान नहीं करते थे और वह धिक्-
 शञ्च कहने योग्य और पतित था, उसके जीवन पर दया क्या

वासः फलं पुण्यस्य कर्मणः । इहःपि यशसा युक्तस्वर्गस्थैर-
 वधार्यते ॥ १० ॥ यदि स्पुर्निर्वृत्ता लोकास्स्युश्च धर्मपरा. प्रजाः।
 नरा धर्ममवृत्ताश्च न राज्ञामनयस्स्पृशेत् ॥११॥ निग्रहे दुष्टवृत्तीनां
 कृतान्तः कुरुने फलम्। इष्टधर्मेषु लोकेषु कर्तव्यं पारलौकिकम् १२
 अतीव देवा रत्नन्ति नरं धर्मपरायणम् । कर्तारस्सुलभा लोके
 दुष्कृतस्य हि कर्मणः । दत्तस्सोगं मया कंसस्साध्वेतदवगम्यताम् ।
 मूनच्छेदः क्रुतस्तस्य विपरीतस्य कर्मणः ॥१४॥ तदेव सान्त्वयतां
 सर्वशोकार्तः ममदागनः । पौराश्च पुर्यां श्रेण्यश्च सान्त्वयन्तां
 सर्व एव हि ॥ १५ ॥ एवं ब्रुवति गोविन्दे विवेशाननताननः ।
 उग्रसेनो यद्वृणुष्व पुत्रं किन्विषशंकितः ॥१६॥ स कृष्णं पुण्डरी-
 कान्तमुवाच यदुसंसदि । बाष्पसन्दिग्धया वाचा दीनया सञ्ज-

दित्खलानां ६ पुण्यमय कर्मोंके फलसे तपोधारी स्वर्गमें जाते हैं
 और पुण्यात्मा पुरुष यहाँ भी यश पाता हुआ स्वर्गस्थ पुरुषकी
 समान रहता है १० यदि मनुष्य सन्तुष्ट रहे, प्रजा धर्मपरायण
 रहे और मनुष्य धर्ममें परायण रहे तो राजाओंको अनीति छू-
 नेही सकती ११ कृतान्त (यमराज) दुष्टवृत्तियोंका निग्रह करके
 फल देते हैं और धर्मको इष्ट समझने वाले पुरुषोंको परलोकमें
 (पुण्य) फल देते हैं १२ धर्मपरायण मनुष्यकी देवता बड़ी
 रत्ना करते हैं पापकर्मके करने वाले मनुष्य तो इस लोकमें मिलने
 मुलभ हैं ॥१३॥ मैंने कंसको मार डाला, इसको अच्छा ही
 समझना चाहिये, क्योंकि-मैंने इसके विपरीत कर्मकी जड़ भी
 काट डाली १४ अब सब शोकार्त स्त्रियोंको सान्त्वना देनी चाहिये
 और सब पुरवासियोंको और श्रेणी वालोंको भी दाढस देना
 चाहिये १५ श्रीकृष्ण इस प्रकार बात चीत कर रहे थे, इतनेमें पुत्रके
 अपराधसे शंकित होते हुए उग्रसेन मस्तक झुका कर यदुओंके साथ
 तहाँ आये १६ तदनन्तर उसने यदुओंकी सभामें लजाती हुई

मानया ॥ १७ ॥ पुत्रो निर्यापितः क्रोधान्नीतो याम्प्या दिशं
रिपुः । स्वधर्माधिगता क्रीर्निर्नाम विश्रावितं शुवि ॥ १८ ॥ स्थापितं
सत्सु पाहात्म्यं शंकिताः रिपवः कृताः । स्थापितो यादवो वंशो
गर्विताम्सुहृदः कृताः ॥ १९ ॥ सागन्तेषु नरेन्द्रेषु प्रतापस्ते प्रका-
शितः । मित्राणि त्वां भजिष्यन्ति संप्रपिष्यन्ति पार्थिवाः २०
मकृतयोन्युयास्यन्ति स्तोष्यन्ति त्वां द्विजातयः । सन्धिबिग्रह
मुत्थ्यास्त्वां प्रणमिष्यन्ति मन्त्रिणः ॥ २१ ॥ हस्त्यश्वरथसम्पूर्णं
पदातिगणसङ्कुलम् । प्रतिगृहाण कृष्णेदं कंभस्य वलमव्ययम् २२
धनं धान्यं च यत्किंचिद्रत्नान्याच्छादनानि चारतीच्छन्तु नियुक्ता
वै त्वदीयाः कृष्ण पुरुषाः ॥ २३ ॥ स्त्रियो हिरण्यं यानानि यद-
न्यद्रसु किंचन । एवं हि विहिते योगे पर्याप्ते कृष्ण विग्रहे २४
प्रनिष्ठितायां मेदिन्यां यद्गनां शत्रुभूदन । त्वं गतिरचागतिश्चैव

नीन और मेरे हुए कण्डराती गायीमें श्रीकृष्णसे कहा, कि-१७
तुमने क्रोधमें भर कर मेरे पुत्रको सगात कर दिया इस प्रकार
शत्रुको यमराजकी दिशा दक्षिण दिशाकी ओर भेज दिया,
यादव वंशको रोक लिया और आने मित्रोंको गर्वाला बना
दिया १८ अब सागन्त राजाओंमें तुम्हारा यश फैल गया है, अब
मित्र तुम्हारा सेवन करेंगे और राजे तुम्हारा आश्रय लेंगे २० अब
प्रकृति मण्डल तुम्हारे अनुकूल रहेगा और द्विजाति तुम्हाभी स्तुति
करेंगे और सन्धि विग्रहमें मुठय मन्त्री भी तुमको आजसे प्रणाम
करेंगे २१ हे कृष्ण ! अब आप कंभके इस हाथी घोड़े और
पैदलोंसे भरपूर अव्यय सेनादलको ग्रहण करिये २२ हे कृष्ण !
अब आपके नियुक्त किये हुए पुरुष-आपको धन धान्य वस्त्र
आदि देंगे ॥ २३ ॥ स्त्रियों सुवर्ण सवारियों तथा और भी सब
धन (सब आपका ही है) हे कृष्ण ! युद्धके कारण ऐसा ही
परिपूर्ण योग पड गया है २४ हे यदुओंके शत्रुओंको मारनेवाले!

यदना यदुनन्दन ॥ २५ ॥ मृगुष्व वदना वीर कृपणानामिद
 वचः । अस्य त्वत्पोगदग्धस्य कसस्याशुभकर्मणः ॥ २६ ॥ तव
 प्रसादाद्गोविन्द प्रेतकार्यं क्रियेत ह । तस्य कृत्वा नरेन्द्रस्य
 विपन्नस्योर्ध्वदेहिकम् ॥ २७ ॥ सस्नुपोहं सभार्यश्च चरिष्यामि
 मृगोभसह । प्रेतसत्कारमात्रेण कृते बान्धवकर्मणि ॥ २८ ॥ आनृण्य
 लौकिकं कृष्ण गताः किल भवन्ति हि । तस्याग्निं पश्चिमं कृत्वा
 चित्स्थाने विधानतः । तोयप्रदानमात्रेण कंसस्यानृण्यमानुषाम्
 पतत्ते कृष्ण विज्ञाप्यं स्नेहोत्र मयि युज्यताम् । प्राप्नोति सुगतिं
 तत्र कृष्णः पश्चिमां क्रियाम् ॥ ३० ॥ एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य कृष्णः
 परमविस्मितः । मत्पुत्राचोग्रसेनं वी सान्त्वपूर्वगिदं वचः । ३१ ।

इस प्रकार पृथ्वीके प्रतिष्ठित होने पर, हे यदुनन्दन ! अब तुम
 ही सकल पादबंधी गति और अगतिरूप हो २५ हे वीर ! अब
 तुम हम कृपणता (दीनता) से भाषण करने वालोंके इस वचन
 को सुनो, कि-हे गोविन्द ! हम अब आपके कोपसे भस्म
 हुए इस अशुभ कर्म करने वाले कंसका आपकी कृपा होने पर
 प्रेतकार्य करना चाहते हैं, मैं इस गरे हुए नरेन्द्रकी और्ध्वदैहिक
 क्रिया करके ॥ २६ ॥ २७ ॥ अपनी भार्या और पुत्रवधुओंके
 साथ वनमें मृगोंके साथ रहूँगा, हे कृष्ण ! प्रेतका सत्कार करनेके
 अनन्तर बान्धव अपने लौकिक ऋणसे छूट जाने हैं, इसीलिये
 मैं चित्स्थानमें धंसकी पश्चिमाग्नि कर उसको जल देने मात्रसे
 ही उससे उद्धार होजाऊँगा ॥ २८ ॥ २९ ॥ हे कृष्ण ! मैं इसकी
 तुमसे आज्ञा माँगता हूँ, आशा है आप स्नेहका वर्ताव कर इसकी
 तो आज्ञा देदी देंगे, दीन मनुष्यको पश्चिम क्रिया करनेसे सुगति
 मिलती है ॥ ३० ॥ इस बातको सुन कर कृष्ण परम विस्मित
 हुए और उन्होंने उग्रसेनको डाँस देते हुए यह बात कही कि-
 हे तात ! आपका कथन समयानुसार है, हे राजशार्दूल ! आपका

कालयुक्तमिदं तात तवैतद्यत्प्रभाषितम् सट्टशं राजशार्दूल वृत्तस्य
 च कुलस्य च ॥ ३२ ॥ यत्त्वमेवंविधो घ्नूये गतेर्थं दुरतिक्रमे ।
 प्राप्स्यते नृपसत्कारं कंसः प्रेतगतोपि सन् ॥ ३३ ॥ कुले महति
 ते जन्म, वेदान्विदितवानसि । कथं न ज्ञायते तात नियतिदुरति-
 क्रमा ॥ ३४ ॥ स्थावराणां च भूतानां जङ्गमानां च पार्थिव ।
 पूर्वजन्मकृतं कर्म कालेन परिपच्यते । ३५ ॥ श्रुतवन्तोर्थवन्तश्च
 दातारः प्रियदर्शनाः । ब्रह्मण्य नयमस्यन्ना दीनानुग्रहकारिणः
 लोकपालसमास्तात महेन्द्रमगविक्रमाः । क्षितिपालाः कृतान्तेन
 नीयन्ते नृपसत्तम ॥ ३७ ॥ धार्मिवास्सर्वभावज्ञाः प्रजापालन-
 तत्पराः । चतुर्धर्मपरा दान्ताः कालेन निधनं गताः ॥ ३८ ॥
 स्वयमात्मकृतं कर्म शुभं वा यदि वाशुभम् । प्राप्ते काले तु तत्कर्म
 हर्यते सर्वदेहिनाम् ॥ ३९ ॥ एषा द्यन्तहिता माया दुर्विज्ञेया

ऐसा कहना आपके कुल और चरित्रके अनुकूल है ३२तुम ऐसी
 दुर्यटनाके होने पर भी ऐसा भाषण कर रहे हो अतः कंसका
 मरने पर भी राजाओंकेसा सत्कार होगा ३३ तुम बड़े कुलमें
 उत्पन्न हुए हो, और तुम्हें वेदोंका ज्ञान है, हे तात ! फिर भी
 तुम मारव्यको लांघा नहीं जासकता ? इस बातको क्यों नहीं
 समझते ॥ ३४ ॥ हे राजन् ! स्थावर और चर भूतोंका पूर्व-
 जन्मका किया हुआ कर्म कालसे पकता रहता है (उसीके फलको
 वे पाते रहते हैं) ३५ हे नृपसत्तम ! हे तात ! शास्त्रज्ञ अर्थको
 जानने वाले दाता प्रियदर्शन ब्रह्मण्य नीतिसम्पन्न और दीनों
 पर अनुग्रह करने वाले महेन्द्रकी समान पराक्रमी लोकपालसरीखे
 राजाओंके भी यमराज पकड़कर लेजाता है ३६-३७ धार्मिक सब
 भावोंके जानने वाले सत्यधर्म परायण प्रजापालनमें तत्पर चतु-
 र्धर्मपरायण चतुर पुरुष भी कालके कारण मर गए हैं ३८ देखा
 जाना है, कि-अपना किया हुआ शुभ वा अशुभ कर्म ही सगया-

सुरैरपि यथायं मृगते लोको ह्यत्र कर्मैव कारणम् ॥ ४० ॥ काले-
नाभिहतः कंसः पूर्वकर्मप्रचोदितः । न ह्यहं कारणं तत्र कालः
कर्म च कारणम् ॥ ४१ ॥ सूर्यसोममयं तात कृत्स्नं स्थावरजङ्ग-
मम् । कालेन निधनं गत्वा कालेनैव च जायते ॥ ४२ ॥ स काल
स्सर्वभूतानां निग्रहानुग्रहे रतः । तस्मात्सर्वाणि भूतानि कालस्य
वशगानि वै ॥ ४३ ॥ स्वदोषेणैव दग्धस्य सूनोस्तव नराधिप ।
नाहं वी कारणं तत्र कालस्तत्र च कारणम् ॥ ४४ ॥ अथवाहं
भविष्यामि कारणं नात्र संशयः । परायणपरः कालः किं करि-

नुसार सब प्राणियोंको प्राप्त होता रहता है ३६ इस मनमें रहने
वाली मायाको देवता भी कठिनतासे जान सकते हैं प्राणी जो
मोहमें पड़ते हैं, इसमें उनका कर्म ही कारण है ४० अपने पहिले
कर्मोंके अनुसार कंसको कालने मार डाला है, मैं इसमें कारण
नहीं हूँ अर्थात् मैं दोषी नहीं हूँ, काल और कर्म ही कंसके वधमें
कारण है ॥ ४१ ॥ हे तात ! सकल सूर्यमय और चन्द्रमय स्थावर
जंगम पदार्थोंका समूह कालसे ही उत्पन्न होता है और कालसे
ही मर जाता है ॥ ४२ ॥ वह काल सकल प्राणियोंका निग्रह
(दण्ड) और अनुग्रह करनेमें लगा रहता है, इस लिये सब
प्राणी कालके वशवर्ती हैं ॥ ४३ ॥ हे नराधिप ! तुम्हारा पुत्र
अपने दोषसे ही भस्म होगया है, मैं इसमें कारण नहीं हूँ इसमें
काल ही कारण है ॥ ४४ ॥ अथवा मैं ही इसमें कारण हूँगा,
इसमें भी कुछ सन्देह नहीं है, परायणपर काल भी अकारण होने
से क्या कर सकता है (अर्थात् पर (कर्म) के अपन (गमन)
के अधीन रहने वाला काल भी कर्मके अधीन रहता है, इस लिये
यह अपने कर्मसे ही मारा गया है (कालने भी इसे नहीं मारा
है) और मैं भी शस्त्रकी समान निमित्तमात्र हूँ, शास्त्रमें कहा
भी है, कि- 'स्वकर्मैव नरं हन्ति न शस्त्ररिपुमृत्यवः । नेभं नेभ्यं

प्यत्यक्षारणः॥४५॥कालस्तु बलवान्जन्दुविज्ञेया हि सा गतिः ।
 परावरविशेषज्ञा यां यान्ति समदर्शिनः ॥ ४६ ॥ गतिः कालस्य
 सा येन सर्वे कालस्य गोचरम् । ब्रवीमि यदहं नात गदनुश्रीयतां
 वचः ॥ ४७ ॥ न हि राज्येन मे कार्यं नाप्यहं नृपकान्तिः । न
 चापि राज्यलुब्धेन मया कर्मो निपातितः ॥ ४८ ॥ किन्तु लोक-
 हितार्थाय कीर्त्यर्थं च सुतस्तव । व्यद्भयूनः कुलम्यास्य सानुजो
 निनिपातितः ॥ ४९ ॥ अहं स एव गोमध्ये गोपैः सह वनेचरः ।
 ग्रीनिमान्निवरिष्यामि कामचारी यथा गजः ॥ ५० ॥ एतावच्छ-
 तशोप्येवं सत्येनैतद्ब्रवीमि तेन मे कार्यं नृत्वेन विज्ञाप्यं क्रिय-
 तागिदम् ॥ ५१ ॥ भवान्जास्तु मान्यो मे गदूनामग्रणीः मधुः ।

न वा सभ्यं चोद्दत्त्वायत्नम्बने' अपना कर्म ही मनुष्यको मार-
 डालना है, शस्त्र रिपु और मृत्यु उसको नहीं मारते, चोरकी
 हथ्या हाथी हाथीवाले और सभ्य पुरुषको नहीं लग सकती) ४५
 हे राजन् ! काल बड़ा बली है और पर तथा अवरके विशेष
 (भेद) को जानने वाले समदर्शी जिसको पाते हैं उस (कालसे)
 पर (मोक्षरूप) मनुष्यको जानना बड़ा कठिन है ॥ ४६ ॥ सब
 कालके अधीन होता चला जाता है, यही कालकी गति है, हे
 नात ! अब मैं (कालवश) जिस वचनको कहता हूँ, उसको
 आप करिये ॥ ४७ ॥ मुझे राज्यसे कुछ काम नहीं है, और मैं
 राजा बननेकी अभिलाषा भी नहीं करता हूँ और मैंने राज्यके
 लोभसे कंसको नहीं मारा है ॥ ४८ ॥ किन्तु मैंने तो संसारका
 हित कर कीर्ति पानेके लिये इस कुलको चिढ़ाने वाले तुम्हारे
 पुत्रको भार्द सहित मारा था ॥ ४९ ॥ मैं तो अब भी इन्द्रा-
 जुमार विचरण करने वाले हाथीकी समान गौश्रोंके मध्यमें
 मगसन्न होता हुआ गोपोंके साथ वनमें ही विचरण करना चाहता
 हूँ ५० और यह बात तो मैं सौ बार सत्य कहता हूँ, कि-मेरा

विजयायाभिपिच्यस्व स्वराज्ये नृपसत्तम ॥५२॥ यदि ते गत्वियं
कार्यं यदि वा नास्ति ते व्यथा । मया निस्पृष्टं राज्यं स्वं चिराय
प्रतिगृह्यताम् ॥ ५३ ॥ वीशम्पायन उवाच । एतच्छ्रुत्वा तु वचनं
नोत्तरं प्रत्यभाषत । व्रीडिताधोमुखं तं तु राजानं यदुसंसदि ५४
अभिपेकेण गोविन्दो योजयामास धर्मवित् । स यद्गमुकुटश्री-
मानुग्रसेनो महाधुतिः चकार सह कृष्णेन कंसस्य निधनक्रियात्
तं सर्वे यादवा मुख्या राजानं कृष्णशासनात् । अनुगम्युः पुरी-
मार्गं देवा इव शतक्रतुम् ॥ ५६ ॥ रजन्पां तु निट्चापानं तत-
स्मूर्गे चिराजिते । पश्चिमं कंससंस्कारं चागुस्ते यदुपुङ्गवाः ॥५७॥
शिविकार्यामधारोप्य कंसदेहं यथाक्रमम् । नैष्ठिनेन विधानेन

राजा वननेका विचार नहीं है और आप ही इसको चलाइये ५१
आप ही राजा वनें आप मेरे मान्य हैं, यदुओंमें अग्रणी है और
स्वामी है, इस लिये हे नृपसत्तम ! आप अपने राज्यमें अपना
अभिपेक कराइये ॥ ५२ ॥ यदि आप मेरा प्रिय कार्य करना
चाहते हों, और आपका व्यथा न होती हो तो आप मेरे छोड़े
हुए राज्यको चिरकालके लिये ग्रहण करिये ५३ वीशम्पायनजीने
कहा, कि-यह सुन कर उग्रसेनने उत्तर नहीं दिया, तब धर्मार्थी
गोविन्दने यादवोंकी सभाके मध्यमें लज्जाके कारण नीचेको मुख
किये हुए उग्रसेनका (सबके सामने) अभिपेक कर दिया,
मुकुट लग जाने पर महा कान्तिमान् श्रीमान् उग्रसेनने कृष्णको
साथमें लेकर कंसकी मरणक्रिया की ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ श्रीकृष्ण
की आज्ञासे सब मुख्य २ यादव नगरके भवेशमार्गमें, देवता जैसे
इन्द्रके पीछे चलते हैं तिस प्रकार, राजा (की अर्था) के पीछे २
चले ॥ ५६ ॥ रात्रि बीत कर जब फिर सूर्य निकल आया तब
यदुपुङ्गवोंने कंसका अन्तिमसंस्कार किया था ॥ ५७ ॥ उन्होंने
कंसके शरीरको पालकीमें पधराकर अन्त्येष्टि कर्मके अनुसार

चक्रुस्ते कंससत्क्रियाम् ॥ ५८ ॥ स नीतो यमुनातीरमुत्तमं नृपतेः
 सुतः । सत्कृतश्च यथान्यायं गैधनेन चिताग्निना ॥ ५९ ॥ तथैव
 आतरं चास्य सुनामानं महाशुभम् । संस्कारं लम्भयामासुः सह
 कृष्णेन यादवाः ॥ ६० ॥ ताभ्यां ते सलिलं चक्रुर्वृष्णयन्त्रकपुरो-
 गमाः । अक्षयं चास्तु प्रेतेभ्यो भाषणाणाः पुनः पुनः ॥ ६१ ॥
 हिरण्यस्य सुवर्णस्य दश कोटीस्तथा हरिः। गावो रत्नानि वासांसि
 ग्रामान्नगरसम्मतान् ॥ ६२ ॥ ददौ कंसं समुद्दिश्य ब्राह्मणेभ्यो
 नृपोत्तमः । अक्षयं चापि विप्रेभ्यो भाषणाणाः पुनः पुनः ॥ ६३ ॥
 तयोस्ते सलिलं दत्त्वा यादवा दीनमानसाः । पुरस्कृत्योग्रसेनं
 न विविशुर्मथुरां पुरीम् ॥ ६४ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि उग्रसेनाभि-
 पेककंससंस्कारकथनं नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

क्रमानुसार कंसका सत्कार किया ॥ ५८ ॥ तदनन्तर उस
 राजपुत्रको यमुनाजीके उत्तम तट पर लेगये और शास्त्रानुसार
 उसके शवको चितामें रख अग्नि लगा कर उसका सत्कार
 किया ॥ ५९ ॥ इसी प्रकार कंसके भाई महाशुभ सुनामाका
 भी यादवोंने और कृष्णने अग्नि संस्कार किया ६० तदनन्तर
 वृष्णि और अन्यत्र आदिने "प्रेतोंके लिये अक्षय हो" इस बात
 को चारम्बार कह कर उनको जलदान दिया ॥ ६१ ॥ तदनन्तर
 उस नृपश्रेष्ठने और श्रीकृष्णने कंसके लिये दश करोड़ सोना
 गाँ रत्न वस्त्र नगरकी समान ग्राम ब्राह्मणोंको दिये, तदनन्तर
 वे सब यादव "अक्षय हो" इस शब्दका चारम्बार उच्चारण
 कर उन दोनोंके लिये जलदान देकर दीनमनसे उग्रसेनके साथ
 में लेकर मथुरापुरीमें पुसे ॥ ६२-६४ ॥ बत्तीसवाँ अध्याय
 समाप्त ॥ ३२ ॥

वीशम्पायन उवाच । स कृष्णस्तत्र बलवानूर्ध्विण्येन सद्गतः ।
 मथुरां यादवाकीर्णां पुरीं तां सुखमावसत् ॥ १ ॥ प्राप्तयौवन-
 देहस्तु युक्तो राजश्रिया ज्वलन् । चचार मथुरां वीरस्स रत्ना-
 करभूषणाम् ॥ २ ॥ कस्यचित्त्वथ कालस्य सहितौ रामकेशवौ ।
 गुरुं सान्दीपनिं काश्यपवन्तिपुरवासिनम् ॥ ३ ॥ धनुर्वेदचिकी-
 र्पार्थिमुभौ तावभिजग्मतुः । निवेद्य गोत्रं स्वाध्यायमाचारेणाभ्यलं-
 कृतौ ॥ ४ ॥ शुश्रूषु निरहङ्काराभौ रामजनार्दनौ । प्रतिजग्राह
 तौ काश्यो विद्याः प्रादोच्च केवलाः ॥ ५ ॥ तौ च श्रुतिधरौ वीरौ
 यथावत् प्रतिपद्यताम् । अहो रात्रैश्चतुष्पष्ट्या साङ्गवेदमधीयताम् ६
 चतुष्पादं धनुर्वेदं शस्त्रग्रामं ससंग्रहम् । अचिरेणैव कालेन गुरु-
 स्नात्तभ्यशिक्षयत् ॥ ७ ॥ अतीवामानुषीं मेषां चिन्तयित्वा तयो-

वीशम्पायनजीने कहा, कि-बलवान् श्रीकृष्ण रामके साथमें
 यादवोंसे घिरी हुई मथुरापुुरीमें सुखपूर्वक रहने लगे ॥१॥ उनके
 देहमें यौवन प्रकट होने लगा था और राजश्रीसे संयुक्त होनेके
 कारण प्रकाशित हो वह वीर रत्नोंके खानोंके भूषण धारण
 करने वाली मथुरापुुरीमें विचरण करने लगे २ एक समय वे
 दोनों राम और कृष्ण एकत्रित होकर काश्यगोत्री अवनतिपुर-
 वासी सांदीपनि गुरुके पास धनुर्वेदकी सीखनेकी इच्छासे गए,
 उन्होंने तहाँ जाकर अपने गोत्र और स्वाध्यायका वर्णन करा
 फिर वे आचारसे अलंकृत निरहंकार होकर उनकी सेवा करनेकी
 इच्छासे खड़े होगए काश्यने उनको ग्रहण कर उनको विद्याएँ
 पठाई ॥ ३-५ ॥ वे दोनों वीर सुन कर ही उसको पूर्ण रीतिसे
 धारण कर लेते थे उन्होंने चौंसठ दिनमें ही अर्द्धो सहित वेदोंको
 पढ लिया ॥ ६ ॥ गुरुजीने उन्हें थोड़े ही समयमें दीक्षा संग्रह
 सिद्धि और प्रयोग चारों पादसहित धनुर्वेद और संग्रहसहित
 शास्त्रग्राम सिखा दिया ७ गुरुजीने उन दोनोंकी अति अमानुषी

गुरुः । मेने तावागतौ चीरौ देवौ चन्द्रद्विवाकरौ ॥ ८ ॥ ददर्श
 च महात्मानानुभौ तावपि पर्वसु । पूजयन्तौ महादेवं साक्षाद्विष्णुं
 व्यवस्थितम् ॥ ९ ॥ गुरुं सान्दीपनिं कृष्णः कृतकृत्योभ्यभाषत ।
 गुर्वर्थं किं ददानीति रामेण सह भारत ॥ १० ॥ तयोः प्रभावं
 स ज्ञात्वा गुरुः प्रोवाच हृष्टवान् । पुत्रमिच्छाम्यहं दत्तं यो मृतो
 लवणाम्भसि ॥ ११ ॥ पुत्र एकोपि मे जातस्स चापि तिगिना
 हतः । मभासे तीर्थयात्रायां तं मे त्वं पुनरानय ॥ १२ ॥ तथेत्ये-
 ताव्रवीत्कृष्णो रामस्यानुमते स्थितः । गत्वा समुद्रं तेजस्वी विवे-
 शान्तर्जलं हरिः ॥ १३ ॥ समुद्रः प्राञ्जलिभूत्वा दर्शयामास स्वं
 तदा । तमाह कृष्णः क्वासौ भोः पुत्ररसां दीपनेरिति १४ समुद्रः
 मत्पुत्राचेदं दैत्यः पञ्चजनो महान् । तिमिरूपेण तं भोलं ग्रस्त

बुद्धिका विचार कर समझा, कि वे दोनों चन्द्रदेव और सूर्य-
 देव आगए हैं ८ उन्होंने देखा तो वे दोनों महात्मा पर्वकालमें
 महादेवजीकी और व्यवस्थित विष्णुकी पूजा करते थे ॥ ९ ॥
 हे भारत ! तदनन्तर कृतकृत्य हुए श्रीकृष्णने और बलरामजी
 ने गुरुसे कहा, कि-हम आपको क्या गुरुदत्तिया दें? ॥१०॥
 तब उनके प्रभावको जान कर गुरुने उनसे प्रसन्न होकर कहा,
 कि-मेरा पुत्र खारी समुद्रमें मर गया था, उसको ही मैं चाहता
 हूँ ॥ ११ ॥ मेरे एक ही पुत्र था, उसको भी प्रभासतीर्थकी
 यात्रा करते समय तिमि (मच्छी) ने मार डाला उसीको आप
 फिर लाकर दीजिये ॥ १२ ॥ तब बलरामजीकी सम्मति लेकर
 श्रीकृष्णजीने तथास्तु कहा, फिर तेजस्वी हरिने समुद्रके जलमें
 प्रवेश किया ॥ १३ ॥ तब समुद्रने हाथ जोड़ कर अपने शरीर
 को दिग्वाया, तब श्रीकृष्णने उससे कहा, कि-सां दीपनिका पुत्र
 कहाँ है ? १४ तब समुद्रने उत्तर दिया, कि हे गाधव ! पञ्च-
 जन नामक बड़े भारी राजसने तिमिके रूपको धारण कर उस

वानिति गाधव १५ उन्मथ्य सलिलादस्पाद् ग्रस्तदानिति भारत ।
 स पञ्चजनगासाथ जघान पुरुषोत्तमः । न चाससाद् तं वालं
 गुरुपुत्रं तदाच्युतः ॥ १६ ॥ स तु पञ्चजनं हत्वा शङ्खं लेभे
 जनार्दनः । यस्तु देवमनुष्येषु पाञ्चजन्य इति श्रुतः ॥ १७ ॥
 ततो वीवस्वतपुरं जगाम पुरुषोत्तमः । ततो यमोभ्युपागम्य
 वनन्दे तं गदाधरम् ॥ १८ ॥ तमुवाचाथ वै कृष्णो गुरु-
 पुत्रः प्रदीयताम् । तयोस्तत्र तदा युद्धमासीद् घोरतरं महत् १९
 ततो वीवस्वतं घोरं निर्जित्य पुरुषोत्तमः । आससाद् च तं वालं
 गुरुपुत्रं तदाच्युतः ॥ २० ॥ आनिनाय गुरोः पुत्रं चिरं नष्टं यम-
 क्षयात् । तनस्सान्दीपनेः पुत्रः प्रभावाद्भिर्तौजसः ॥ २१ ॥ दीर्घ-
 कालगतः भेतः पुनरासीच्छरीरवान् । तदशान्यमचिन्त्यं च दृष्ट्वा

बालकको उस लिया था १५ ॥ हे भारत! उसने उसको समुद्रके
 जलमें खेंच कर उस लिया था, उस पञ्चजनके पास जाकर
 पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने उसको मार डाला परन्तु फिर भी
 अच्युतको गुरुका पुत्र नहीं मिला १६ परन्तु जनार्दनने पञ्च-
 जनको मारनेके अनन्तर एक शंख पाया था वह देवता और
 मनुष्योंमें पाञ्चजन्यके नामसे प्रसिद्ध होगया था ॥ १७ ॥
 तब पुरुषोत्तम यमराजकी नगरीको गए तब यमराजने गदाधारी
 श्रीकृष्णके सामने आ, उनको प्रणाम किया ॥ १८ ॥ श्रीकृष्ण
 ने उससे कहा, कि-हमारे गुरुके पुत्रको देदीजिये, तब उन दोनों
 में घोर युद्ध होने लगा ॥ १९ ॥ तदनन्तर अच्युत पुरुषोत्तमने
 भयंकर यमराजको जीत कर उस बालक गुरुपुत्रको छीन
 लिया ॥ २० ॥ और चिरकालसे नष्ट हुए गुरुके पुत्रको यमराज
 के घरसे ले आवे, तब उन अमित तेजस्वीके प्रसादसे बहुत समय
 से लापता मरा हुआ सान्दीपनिका पुत्र फिर शरीरधारी हो
 गया, इस अचिन्त्य और अद्भुत बातको देख कर सब प्राणियों

सुमहद्भुतम् ॥ २२ ॥ सर्वेषामेव भूतानां विस्पयस्समजायत । स
 गुरोः पुत्रमादाय पांचजन्यं च माधवः । रत्नानि च महार्हाणि
 पुनरायाज्जगत्प्रभुः ॥ २३ ॥ रात्रसैस्तस्य रत्नानि महार्हाणि
 वहूनि च । आनाय्यावेदयागास गुरवे वासवानुजः ॥ २४ ॥
 गदापरिघयुद्धेषु सर्वास्त्रेषु च तावुर्भौ । अचिरान्मुख्यतां प्राप्सौ
 सर्वलोके धनुर्भृताम् ॥ २५ ॥ ततस्सान्दीपनेः पुत्रं तद्रूपवयसं
 तदा । प्रादात्कृष्णः प्रतीतात्मा सह रत्नैरुदारधीः ॥ २६ ॥ चिर-
 नष्टेन पुत्रेण काश्यपस्सान्दीपनिस्तदा । समेत्य सुमुदे राजन्पूजय-
 न्नामकेशवौ ॥ २७ ॥ कृतास्त्रौ तावुर्भौ वीरौ गुरुमामन्व्य सुव्रता ।
 आघातौ मथुरां भूयो वसुदेवसुतावुर्भौ ॥ २८ ॥ ततः प्रत्युद्य-
 युस्तसर्वे यादवा यदुनन्दनौ । सवाला हृष्टमनस उग्रसेनपुरोगमाः २९
 श्रेण्यः प्रकृतपरचेव मन्त्रिणस्सपुरोहिताः । सवाल्लगृद्धा सा चैव

को बड़ा आश्चर्य हुआ, जगत्के प्रभु माधव गुरुपुत्र पाञ्चजन्य
 शंख और रत्नोंको लेकर फिर आये थे ॥ २१-२३ ॥ वैवस्वन
 यमराजके रात्रसोंने उनको बहुतसे रत्न दिये थे, इन्द्रके छोटे
 भाईने वे सब रत्न गुरुके अर्पण कर दिये २४ वे सब धनुष-
 धारियोंमें श्रेष्ठ पुरुषोंमें, सब प्रकारके गदायुद्ध परिघयुद्ध और
 सब प्रकारके अस्त्रोंमें शीघ्र ही सबसे बढ़ गए २५ तदनन्तर
 उदारबुद्धि श्रीकृष्णने उसी अवस्था और रूपका करके सांदी-
 पनिके पुत्रको रत्नों सहित गुरुजीके अर्पण कर दिया २६ उस
 समय बहुत समयसे नष्ट हुए अपने पुत्रसे मिल कर सांदीपनि
 मसन्न हुए और उन्होंने राम कृष्णकी पूजा की २७ वे सुव्रत वीर
 दोनों वसुदेवपुत्र अस्त्रविग्रामें पारंगत होनेके अनन्तर मथुरामें
 फिर आ गए २८ उस समय उग्रसेनको आगे करके वाल्लर्षी
 सहित सब यादव भनमें मसन्न होने हुए श्रीकृष्णकी अगमानी
 करनेको गए थे २९ श्रेणि प्रकृतिमणल मन्त्री पुरोहित और चालक

पुरी समयवर्तत ॥ ३० ॥ नन्दितूर्याएयवाद्यन्त तुष्टुवुश्च जनार्दनम् । रथ्याः पताकामालिन्यो भ्राजन्ते स्म समन्ततः ॥ ३१ ॥ प्रहृष्टमुदितं सर्वमन्तःपुरमशोभत । गोविन्दागमनेत्यर्थं यथैवेन्द्रमहे तथा ॥ ३२ ॥ मुदिताश्चाथ गायन्ति राजमार्गेषु गायकाः । तत्रासीत्पथिता गाथा यादवानां प्रियंकरा ॥ ३३ ॥ गोविन्दरामौ संमासौ भ्रातरौ लोकविश्रुतौ । स्वे पुरे निर्भयास्सर्वे क्रीडध्वं सह वान्धवैः ॥ ३४ ॥ न तत्र कश्चिद्दीनो वा मलिनो वा विचेतनः । मथुरायामभूद्राजगोविन्दे समुपस्थिते ॥ ३५ ॥ वयांसि साधुवाक्यानि प्रहृष्टा गोहृषद्विपाः । नरनारीगणास्सर्वे भेजिरे मनसस्सुखम् ॥ ३६ ॥ शिवाश्च वाताः प्रबजुर्विरजस्का दिशो दश ।

वृद्धों सहित वह पुरी उस समय उमड़ पड़ी ३० उस समय नन्दि और तूर्य वजने लगे और मनुष्य जनार्दनकी स्तुति करने लगे और गलियों पर स्थान २ पर भूएडिये लग गई और वह गलियें शोभा पाने लगीं ॥ ३१ ॥ मसन्न होता हुआ सब अन्तःपुर शोभा पाने लगा, इस प्रकार गोविन्दके आने पर महेन्द्रोत्सवकी समान उरसव होने लगा ॥ ३२ ॥ उस समय गायक पुरुष राजमार्गोंमें मसन्न होते हुए गाना गाने लगे तहाँ पर यादवोंको प्रिय लगने वाली यादवोंकी प्रसिद्ध गाथाएँ गाईं जा रही थीं ॥ ३३ ॥ (और यह भी कहा जा रहा था, कि—) संसार भरमें प्रसिद्ध गोविन्द और बलराम नामक भाई अपनी पुरीमें आ गए हैं अब सब निर्भय होकर वान्धवोंके साथ क्रीड़ा करो ॥ ३४ ॥ हे राजन् ! गोविन्दके मथुरामें रहते समय तहाँ पर कोई दीन मलिन वा अन्नमना नहीं रहने पाता था । ३५ । पत्नी मनोहर वाणियों बोलते थे और हाथी घोड़े तथा बैल मसन्न रहते थे और सम्पूर्ण नर नारी मनमें प्रसन्न रहते थे ॥ ३६ ॥ मंगलमय वायु बहता था और दिशाएँ धूलिरहित रहती थी और सब मन्दिरोंमें देवता

दैवतानि च ह्युग्रानि सर्वेष्वायतनेषु च ॥ ३७ ॥ यानि लिङ्गानि
लोकस्य चासन्धुतयुगं पुरा । तानि सर्वाण्यदृश्यन्त पुरीं प्राप्ते
जनार्दने ॥ ३८ ॥ ततः काले शिवे पुण्ये स्थन्दनेनारिमर्दनः ।
हरियुक्तेन गोविन्दो विवेश मथुरां पुरीम् ॥३९॥ विशन्तं मथुरां
रम्यां तमुपेन्द्रमरिन्दमम् । अनुजगमुर्यदुगणाशशक्रं देवगणा इव ४०
वसुदेवस्य भवनं तनस्तौ यदुनन्दनौ । प्रहृष्टौ हृष्टवदनौ चन्द्रा-
दित्यात्रिवाचलम् ॥४१॥ परेण तेजसोपेनौ सुरेन्द्राविव रूपिणौ ।
तावायुधानि त्रिन्धम्य गृहे स्वे स्त्रीरचारिणौ ॥४२॥ मुमुदाते यदु-
वरां वसुदेवसुताबुधौ । उद्यानेषु विचित्रेषु फलपुष्पावनामिषु ४३
चेरतुसृष्टमहात्मानौ यादवीः परिवारिता । रैवतस्य समीपेषु
सरित्सु विमलासु च ॥ ४४ ॥ पद्मपत्रवित्रद्रासु कारणद्वययुतासु

प्रसन्न रहते थे ३७ पहिले मन्ययुगमें लोकमें जो चिन्ह दीखते थे,
वे सब चिन्ह श्रीकृष्णके मथुरामें आने पर दीखने लगे ॥ ३८ ॥
तदनन्तर पवित्र आर पुण्यमय समगमें आरिमर्दन गोविन्दने घोड़ों
से जुते हुए रथमें बैठ कर मथुरापुरीमें प्रवेश किया ३९ मथुरामें
प्रवेश करते हुए अरिदमन उपेन्द्र (श्रीकृष्ण) के पीछे यादव
ऐसे चले जैसे-देवता इन्द्रके पीछे जाँय ४० जैसे चन्द्रमा और
सूर्य प्रसन्नमुखमें पर्वत पर चढ़ते हैं इसी प्रकार वे दोनों यदुनन्दन
भी वसुदेवजीके महल पर चढ़े ४१ वे परम तेजसे दो सुरेन्द्रोंकी
समान प्रतीत होने वाले राग कृष्ण अपने घरमें आयुषोंको रख
कर इच्छानुमार घूमने लगे ४२ वे यदुवर दोनों वसुदेवपुत्र फल
और पुष्पोंसे गमे हुए विचित्र उद्यानोंमें आमोद करने लगे ४३
वे दोनों महात्मा यादवोंके साथ २ रैवत पर्वतके समीपकी
कारणद्वोंसे युक्त और कमलोंसे भरी हुई, पवित्र नदियों पर
विचरण करने लगे इस प्रकार वे एकसी रचना करने वाले पवित्र
मुख वाले वासुदेव-और बलराम उग्रसेनके अनुयायी बन कर

च । एवं तावेकनिर्गणौ मथुरायां शुभाननौ । उग्रसेनानुगौ भूत्वा
कञ्चित्कालं सुमोदतुः ॥ ४५ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि रामकृष्ण
प्रत्यागमनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

गौशम्पायन उवाच । कस्यचित्त्वथ कालस्य राजा राजगृहेश्वरः ।
शुभाव निहतं कंसं दुहितृभ्यां गहीपतिः ॥ १ ॥ ततो नाति-
चिरात्कालाज्जरासन्धः प्रतापवान् । आजगाम पदद्वेन चलेन
गहता वृतः ॥ २ ॥ जिघांसुर्हि यदुन्कुद्भः कंसस्यापचितिं स्मरन् ।
अस्तिः प्राप्तिश्च नाम्ना ते मगधस्य सुते नृप ॥ ३ ॥ जरासन्धस्य
कन्याण्यौ पीनश्रोणिपयोधरे । उभे कंसस्य ते भार्ये प्रादाद्दार्ह-
द्रथो वृषः ॥ ४ ॥ स ताम्भ्यां सुमुदे राजा वध्वा पितरमाहुरुम् ।
समाश्रित्य जरासन्धनादृत्य च यादवान् । शूरसेनेश्वरो राजा
मथुरामें क्रुद्ध समय तत आनन्दके साथ विचरण करते रहे ४४-४५
वैतीसवें अध्याय समाप्त ३३

गौशम्पायनजीने कहा, कि-एक समय राजगृह (मगध) के
अधिपति राजा जरासन्धने अपनी पुत्रियोंसे कमकी मृत्युका
समाचार सुना १ तब प्रतापी जरासन्ध वड़ी भारी पडङ्ग (रथ
हाथी घोड़ा पैदल दूकान और धान्यों की दूकान वाली) सेना
को साथमें ले शीघ्र ही (मथुरा पुरी पर चढ़) आया २ उसने
कंस की पूजा करनेका ध्यान करके क्रोधमें यादवोंको मारनेके
लिये (मथुरा पर चढ़ाई की थी) हे राजन् मगधराजकी पुत्रि-
योंका अस्ति और प्राप्ति नाम था ३ वे जरासन्धकी कन्याणी
पुत्रियें स्थूल नितम्ब और स्थूल पयोधरों वाली थी, उन दोनों
को बृहद्रथके पुत्र जरासन्धने कंसको विवाह दिया था ४ तब
राजा कंस अपने पिता आहुरुको बाँध कर उन दोनों भयार्थियोंके
साथ आनन्द करने लगा था, वह कंसका आश्रय ले यादवोंका

यया ते बहुशः श्रुतः ॥ ५ ॥ ज्ञातिकार्यार्थिसिद्ध्यर्थमुग्रसेनहिते
 रतः । वसुदेवोभवन्नित्यं कंसो न ममृषे च तम् ॥६॥ रामकृष्णौ
 समाश्रित्य हने कंसे दुरात्मनि । उग्रसेनोभवद्राजा भोजवृष्णयन्य-
 कर्तृतः ॥ ७ ॥ दुहितृभ्यां जरासन्धः मियाभ्यां बलवान्नृपः ।
 नोदितो वीरपत्नीभ्यामुपायान्मथुगं ततः ॥ ८ ॥ कृत्वा सर्वं
 समुद्योगं क्रोधादग्निसप्तो ज्वलन् । प्रतापावनता ये च जरासन्धस्य
 पार्थिवाः ॥ ९ ॥ मित्राणि ज्ञातयरचैव संयुक्ताः सुहृदन्तथा ।
 तमेवानुययुः सर्वे सैन्यैः समुदितैर्दृताः ॥ १० ॥ महेष्वासा महा-
 वीर्या जरामन्यमियैषिणः । कारुपो दन्तवक्रश्च चेदिराजश्च
 वीर्यवान् ॥ ११ ॥ कलिङ्गाधिपतिश्चैव पाण्डुश्च बलिनाम्बरः ।
 सर्कृतिः केशिकश्चैव भीष्मकश्च नराधिपः ॥ १२ ॥ पुत्रश्च

अधिकतर तिरस्कार किया करता था, यह तुमने शूरसेनाधीश
 के विषयमें सुना ही है ५ और वसुदेव जातिवालोंकी कार्यसिद्धि
 के लिये उग्रसेनके हितमें परायण रहते थे, परन्तु कंस को यह
 चान् अच्छी नहीं लगा करती थी ६ दुरात्मा कंसके मारे जाने
 पर राम कृष्णका आश्रय लेनेसे उग्रसेन राजा होगए थे और
 भोज वृष्णि तथा अन्यकर्तृशी उनको घेरे रहने थे ७ बली राजा
 जरामन्य अपनी वीरपत्नी पुत्रियोंके भेरेणा करने मथरा पर चढ़
 गया थाबवह सब प्रकारका उद्योग करके अपने प्रतापसे अग्निकी
 समान प्रकाशित होने लगा, और जो राजे जरासन्धके प्रतापसे
 अवनत रहने थे तथा उसके मित्र, जाति वाले, और सुहृद्
 अपनी २ मेनाओंको साथमें ले आनन्दिन होते हुए उसके पीछे २
 चले ९-१० वे सब महायुधिर, महावीर्यवान् जरामन्यका मिय
 करना चाहते थे (उनके नाम डम प्रकार है) कारुप दन्तवक्र
 वीर्यवान् चेदिराज ११ कलिङ्गाधिपति, बलियोंमें श्रेष्ठ पाण्डु
 केशिक और कुटिल राजा भीष्मक १२ और जो वसुदेव और

भीमकस्यापि स्वामी मुख्यो धनुर्भृताम् । वासुदेवार्जुनाभ्यां यः
 स्पर्द्धते स महाहवे ॥ १३ ॥ वेणुदारिश्रुतर्वा च क्रथश्चैवांशु-
 मानपि । अङ्गराजश्च बलवान्वद्गानामधिपस्तथा ॥ १४ ॥ कौशल्यः
 काशिराजश्च दशार्णाधिपतिस्तथा । सुखेश्वरश्च विक्रान्तो विदे
 हाधिपतिस्तथा ॥ १५ ॥ मद्राजश्च बलवान् त्रिगर्तानामथेश्वरः ।
 शाल्वराजश्च विक्रान्तो दरदश्च महाबलः ॥ १६ ॥ यवनाधि-
 पतिश्चैव भगदत्तश्च वीर्यवान् । सौवीरराजश्चैव्यश्च पाण्ड्यश्च
 बलिनाम्बरः ॥ १७ ॥ गान्धारराजस्सुबलो नग्नजिच्च महा-
 बलः । काश्मीरराजो गोनर्दो दरदाधिपतिर्नृपः । दुर्घोषनाद-
 यश्चैव धार्तराष्ट्र महाबलाः ॥ १८ ॥ एते चान्ये च राजानो
 बलवन्तो महारथाः । तमन्वयुर्जरासन्धं विद्विपन्तो जनार्दनम् १९
 ते शूरसेनानाविश्य प्रभूतयवसेन्धनान् । ऊपुस्संरुध्य मधुरां पुर-
 स्कृत्य बलं तदा ॥ २० ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि मधुरोपरो-
 रोधो नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः ॥३४॥

अर्जुनसे रणमें स्पर्धा किया करता था वह रथियोंमें मुख्य भीमक
 का पुत्र स्वामी १३ वेणुदारि श्रुतर्वा क्रथ अंशुमान् बंगोंका स्वामी
 बलवान् अंगराज १४ कौशल्य, काशिराज दशार्णाधिपति सुखे-
 श्वर विक्रान्त तथा विदेहाधिपति १५ बलवान् मद्रराज त्रिगर्तोंका
 राजा शाल्व राजा विक्रान्त महाबली दरद यवनाधिपति वीर्यवान्
 श्रीमान् भगदत्त सौवीरराज शैव्य बलियोंमें श्रेष्ठ पाण्ड्य १६-१७
 गान्धारराज-सुबल महाबली-नग्नजित् दुर्घोषन आदि धृतराष्ट्रके
 महाबली पुत्र १८ ये राजे और भी बहुतसे राजे श्रीकृष्णसे द्वेष
 करते हुए जरासन्धके पीछे २ चले १९ वे सब बहुतसे जाँ और
 सँधे बाल शूरसेन देशोंमें घुसे और उन्हींने तहाँ रह कर मधुरा-
 पुरीको घेर लिया २० चौतीसवाँ अध्याय समाप्त ३४

त्रैशम्पायन उवाच । मथरोपवने गत्वा निविष्टांस्तान्नराधि-
 पान् । अपश्यन्कृष्णायस्सर्वे पुराकृत्य जनार्दनम् ॥१॥ ततो हृष्ट-
 मनाः कृष्णो रागं वचनमब्रवीत् । त्वरते खलु कार्यार्थो देवतानां
 न संशयः ॥ २ ॥ यथायं संनिकृष्टो हि जरासन्धो नराधिपः ।
 लक्ष्यन्ते हि ध्वजाग्राणि रथानां वातरंहसाम् ॥ ३ ॥ एतानि
 शशिकल्पानि नृपाणां विजिगीषताम् । छत्राण्यार्यं विराजन्ते
 मोच्छ्रितानि सितानि च ॥४॥ अहो नृपरथे दग्रा विमलाश्छत्र
 पंक्तयः । अभिवर्तन्ति नश्शुभ्रा यथा खे हंसपंक्तयः ॥ ५ ॥
 बाले खलु नृपः माप्तो जरासन्धो महीपतिः । आवयोर्युद्धनिरूपः
 प्रथमस्समरातिथिः ॥६॥ आर्यं तिष्ठान् सहितावनुभास्ते महीपतौ ।
 युद्धारम्भः प्रयोक्तव्यो बलं तावद्विमृश्यताम् ॥ ७ ॥ एवमुक्त्वा
 ततः कृष्णस्स्वस्थस्संग्रामलालसः । जरासन्धवलं प्रेप्सुरचकार

त्रैशम्पानजीने कहा कि-मथुराके उपवनमें आकर बैठे हुए उन
 राजाओंको जनार्दन तथा वृष्णिर्षोने देखा १ उस समय कृष्णने
 मनमें प्रसन्न होकर बलराम से कहा, कि-अब देवताओंका कार्य
 शीघ्रता कर रहा है २ क्योंकि-यह राजा जरासन्ध पासमें आगया
 है वायुकी समान वेगवान् रथोंकी ध्वजाओंके अग्रभाग दीख रहे
 हैं ३ हे आर्य ! ये जीतना चाहने वाले राजाओंके उठे हुए श्वेत
 मुकुट चन्द्रमाकी समान प्रकाश कर रहे हैं ४ अहो ! राजाओंके
 बड़े २ रथोंकी निर्मल छत्र पंक्तियें आकाशमें शुभ हंसपंक्तियों
 की समान शोभा देरही हैं ५ महीपति जरासन्ध उचित समय
 पर ही आया है, यह हमारे युद्धकी कर्सांटी होगी, और समरका
 प्रथम अतिथि होगा ६ हे आर्य ! अब इस राजाके आने पर
 हर्मं एकत्रित होकर खड़े होजाना चाहिये अब युद्धके आरम्भका
 सागान करना चाहिये, अब पहिले सेनाकी ओर ध्यान दे ७
 इस प्रकार कह कर संग्रामकी लालसा करने वाले स्वस्थ श्रीकृष्ण

बलदर्शनम् ॥ ८ ॥ धीक्षमाणश्च तान्सर्वान्नुपान्यदुवरोन्वयः ।
 आत्मनैवात्मनो वाक्यमुवाच हृदि गन्त्रवित् ॥ ९ ॥ इमे ते पृथिवी-
 पालाः पार्थिवे वर्त्मनि स्थिताः । ये विनाशं गमिष्यन्ति शास्त्र-
 दृष्टेन कर्मणा ॥ १० ॥ प्रोक्षितान्खल्विमान्गान्ये मृत्युना नृपपुङ्ग-
 वान् । स्वर्गगामीनि चाप्येषां वपुं पि प्रचकाशिते ॥ ११ ॥ स्थाने
 भारपरिश्रान्ता वसुधेयं दिवं गता । एषां नृपाणां मुख्यानां बलौ-
 घैरभिपीडिता ॥ १२ ॥ मही निरन्तरा चेयं बलराष्ट्राभिसंवृता ।
 स्वप्नेन खलु कालेन विविक्तं पृथिवीतलम् ॥ १३ ॥ भविष्यति
 नरेन्द्रोद्यैश्शतशो विनिपातितैः । वीशम्पायन उवाच । जरासन्ध-
 स्नतः क्रुद्धः मधुस्त्वर्षमहीक्षिताम् ॥ १४ ॥ नराधिपसहस्रौघैरनु-
 यातो महाद्युतिः । व्यापतोदग्रतुरगैस्सुयानैस्सुसमाहितैः ॥ १५ ॥

जरासन्धके बल (के पार) को पानेकी इच्छासे उसकी सेना
 को देखने लगे ८ यादवोंके श्रेष्ठ गन्त्रवेत्ता श्रीकृष्ण उन सब
 राजाओंको देख कर अपने मनमें अपने आप ही कहने लगे, कि-ए
 ये पृथ्वीपाल पार्थिव मार्ग (पृथ्वीके प्राणियोंके योग्य मृत्यु
 मार्ग) में स्थित होगए है, अब ये शास्त्रमें लिखे कर्मानुसार शीघ्र
 ही नष्ट होजावेंगे ॥ १० ॥ मैं इन सब नृपपुङ्गवोंको मृत्युसे प्रोक्षित
 समझता हूँ (अर्थात् यज्ञपशुकी समान शीघ्र ही मारे जाने
 वाला समझता हूँ) इनके शरीर भी स्वर्गमें जानेके लिये ही
 अधिक मकाशित होरहे है ॥ ११ ॥ भारसे पीडित होकर पृथ्वीका
 स्वर्गमें जाना उचित ही था, इन मुख्य २ नृपोंकी सेनाओंके
 भारसे निरन्तर पीडित होती हुई ये सेना और राष्ट्रोंसे भरपूर
 पृथ्वी, थोड़े ही समय इन सैरुदों नरेन्द्रोंके भूमिमें गिरा देने पर
 निर्जन होजावेगी, वीशम्पायनजीने कहा, कि-इतनेमें ही सब
 राजाओंका स्वामी जरासन्ध क्रोधमें भर गया ॥ १२-१४ ॥ उस
 महाक्रान्तिमान्के पीछे सहस्र २ राजाओंकी टोलियें चौड़े और

रथैस्सांश्रामिकैर्युक्तरसद्गतिभिः क्वचित् । हेमकक्षैर्महाघण्टै-
 वारणैर्वारिदोपमैः ॥ १६ ॥ महामात्रोत्तमारुहैः कल्पितै रणको-
 विदैः । । स्वारुहैः सादिभिर्युक्तैः प्रेङ्गमाणैः प्रवल्गितैः ॥ १७ ॥
 वाजिभिर्मेषसंकाशैः खड्गिभिरिव पत्तिभिः । खड्गचर्मधरोदग्रैः
 पत्तिभिर्वलिनां वरैः ॥ १८ ॥ सहस्रसंख्यासंयुक्तैरुत्पद्गिरिवो-
 रगैः । एवं चतुर्विधैस्सैन्यैः कम्पमानैरिवाम्बुदैः ॥ १९ ॥ नृपः
 प्रयातो बलवान् जरासन्धो धृतव्रतः । स रथैर्मेषनिर्घोषैर्गजैश्च
 मदसंयुतैः ॥ २० ॥ हेपमाणैश्च तुरगैः च्चेडमानैश्च पत्तिभिः ।
 नादयायानो दिशस्सर्वास्तस्याः पुर्या वनानि च ॥ २१ ॥ स
 राजा सागराकारस्सैन्यः प्रत्यदृश्यत । तद्दलं पृथिवीशानां हृष्ट-

चतुर घोड़ों वाले सुसज्जित रथोंमें बैठ कर चल रही थी १५
 और कहीं पर संग्रामके सागानसे भरे हुए रथोंसे अलग सुवर्णकी
 अम्बारी वाले बड़े २ घण्टों वाले पर्वतकी समान काया वाले
 हाथियों पर श्रेष्ठ २ हाथीवान् बैठे थे और उन पर रणकोविद
 पुरुषोंके द्वारा नियुक्त सवार भली प्रकार बैठे थे और वे हाथी
 उड़ल कूट मचाते हुए चल रहे थे ॥ १६-१७ ॥ (और वही
 पर जरासन्धके पीछे) घोड़ों पर सवार मेषोंकी समान उड़लते
 हुए चले जाते थे तलवार और ढाल धारण करने वाले बल-
 वानोंमें श्रेष्ठ पैदल भी (जरासन्धके पीछे २ चल रहे थे) १८
 इसप्रकार उड़लते हुए सर्पोंकी समान चार प्रकारकी सहस्रों
 सेनाएँ बादलोंकी समान मँडराती हुई जरासन्धके पीछे २ चल
 रही थीं १९ ॥ धृतव्रत बली राजा जरासन्ध मेषकी समान भङ्ग-
 कार करते हुए रथोंसे, गद टपकाने वाले हाथियों(की चिन्हाडों)
 से घोड़ोंकी हिनहिनादृष्टसे और पैदलोंके बाँसोंके शब्दसे उस
 पुरीके उपवन और दिशाओंको प्रतिभ्वनिन करता हुआ चला
 आरहा था ॥ २० ॥ २१ ॥ उस समय सेनासहित जरासन्ध

योधजनाकुलम् २२ च्वेदितारफोटितरवं मेघसैन्यमिवावर्धो । रथैः
 पवनसम्पातैर्गजैश्च जलदोपभौः । - तुरगैश्च जघोरैतैः पत्तिभिः
 खगमोपमैः ॥ २३ ॥ विमिश्रं सर्वतो भाति मत्तद्विपसमाकुलम् ।
 घर्मान्ते सागरगतं यथाभ्रपटलं तथा ॥ २४ ॥ सवलास्ते मही-
 पाला जरासन्धपुरोगमाः । परिचार्य पुरीं सर्वे निवेशायोपचक्रिरे
 वर्धो तस्य निविष्टस्य बलश्रीरिशदिस्य धौ । शुबलपर्यन्तपूर्णस्य
 यथा रूपं महोदधेः ॥ २६ ॥ वीतरात्रे ततः काले समुत्सर्धमही-
 जितः । ध्वारोहणार्थं पुर्यास्ते समीपयुद्धलालम्नाः ॥ २७ ॥ सम-
 वायीकृतास्सर्वे यमुनागजु ते नृपाः । निविष्टा मन्त्रयासास्युद्ध-
 कालकुतूहलाः ॥ २८ ॥ तेषां सुतुमुलः शब्दश्शुश्रुवे पृथिवं क्षि-

समुद्रकी समान आकार वाला दीखता था, जिसमेंके योधा और
 मनुष्य हर्षमें भर रहे थे ऐसे राजाओंका बल लकड़ियों और
 थपकियोंके शब्द करता हुआ मेघोंकी सेनासा दीखता था, जैसे
 वर्षा ऋतुमें समुद्रमें खड़ा हुआ वादल दीखता है, इसी प्रकार
 पवनकी समान चलने वाले रथोंसे और मेघोंकी समान हाथियों
 से, वेगवान् घोड़ोंसे और पत्तियोंकी समान चलने वाले पैदलोंसे
 मिला हुआ मदमत हाथियोंसे ढटाहुआ सेनादल सब ओरसे
 शोभा पारहा था ॥ २२-२४ ॥ जरासन्ध आदि उन सब
 राजाओंने अपनी सेनाओंके साथ पुरीको घेरनेके अनन्तर मुहाना
 बाटनेका विचार किया ॥ २५ ॥ उस समय उस पड़ाव डाल कर
 पड़ी हुई सेनाकी शोभा शुक्रपक्षकी समाप्तिमें पूर्ण हुए समुद्रकी
 समान प्रतीत होरही थी ॥ २६ ॥ तदनन्तर रात्रिका समय व्यतीत
 होजाने पर वे राजे उठे और युद्धकी लालसासे पुरी पर चढ़ाई
 करनेके लिये एकत्रित होने लगे २७वे सर्व नृपति यमुनाजीके तट
 पर एकत्रित हो युद्धके समय कुतूहलपूर्वक विचार करने लगे २८
 जैसे मलयके समय अपनी मर्यादाको त्यागते हुए समुद्रोंका शब्द

ताम् । युगान्ते भिद्यमानानां सागराणागिव स्वतः ॥ २६ ॥ तेषां
 सकञ्चुकोप्लीपास्त्वविरा वेत्रपाणयः । चेर्गर्गा शब्द इत्येवं
 वदन्तो राजशासनान् ॥ ३० ॥ तस्य रूपं बलस्यासीन्निशब्द-
 स्तिमितस्य च । लीनमीनद्रस्येव निशब्दरय यथोदधेः ३१
 निशब्दस्तिमिते तस्मिन्योगादिव महार्णवे । जरासन्धो बृहद्वाक्यं
 बृहस्पतिरिवानदे ॥ ३२ ॥ शीघ्रं सगभिवर्तन्तां वल्लानि पृथिवीक्षि-
 ताम् । सर्वतो नगरी चेषं जर्गाद्यैः परिवार्यताम् ॥ ३३ ॥ अरग-
 यन्त्राणि युज्यन्तां क्षेपणीयाश्च मुद्गराः । वार्या भूमिसमा सर्वा
 जलौघैश्च परिप्लुतां । ऊर्ध्वं चापा निष्पाहन्तां प्रासादां तोम-
 राम्नथा ॥ ३४ ॥ दार्गतां चैव टंकाद्यैः खनित्रैश्च पुरी द्रुतम् ।
 नृपाश्च युद्धमार्गज्ञा विन्यस्यन्तामदूरतः ॥ ३५ ॥ अद्यप्रभृति

सुनाई आता है, इसी प्रकार उन राजाओं का तुमुल शब्द सुनाई
 आने लगा ॥ २६ ॥ उनके कञ्चुक और पगड़ी धारण करने
 व ले हाथमें बँध लिये हुए चपरासी राजाओंके अनुसार कहते
 फिरते थे, कि-चुप होंगाओ ॥ ३० ॥ निःशब्द और स्तिमित
 उस सेनादलका रूप जिसके नाके और मीन चुप होकर बैठ
 जाँव ऐसे निःशब्द समुद्रकी समान दीख रहा था ३१ (वातचीत)
 वृत्तिका निरोध होने से समुद्रकी समान सेनादलके निःस्तब्ध
 होजाने पर जरासन्धने बृहस्पतिकी समान यह बड़ा भारी भाषण
 दिया कि- ॥ ३२ ॥ राजाओंकी फौजें शीघ्र ही तयार होजावें
 और इस नगरीको मनुष्योंके झुण्ड चारों ओरसे घेरलें ॥ ३३ ॥
 अब गोफनी ठीक करो और मुद्गर तथा क्षेपणियोंको भी ठीक
 करो, सब भूमिको इतमार करो और उस पर छिड़काव करो,
 धनुषोंको ऊपरको उठाओ और प्रास तथा गोमरोंको भी उठा
 लो ॥ ३४ ॥ टंक (कुदाल) और खनित्र (फायदों) से पुरोंको
 शीघ्र ही दादो और युद्धकी रीतिको जानने वालेपी स्वसके

सैन्यैर्गोपुरीरोधः प्रवर्त्यताम् । यावदेतौ रथो गोर्धो वसुदेव-
सुनावुर्धो ॥ ३६ ॥ संकर्षणं च कृष्णं च घ्रातयापि शितैश्शरैः ।
आकाशमपि वाणैर्घनिस्सम्पातं यथा भवेत् ॥ ३७ ॥ मयानु-
शिष्टास्तिष्ठन्तु पुरीभूमिषु भूमिषाः । तेषु तेष्ववकाशेषु शीघ्र-
मास्तु तां पुरीम् ॥ ३८ ॥ मदः कलिङ्गाधिपतिश्चेकितानस्सवाहिकः ।
काश्मीरराजो गोवर्द्धः करुणाधिपतिस्तथा ॥ ३९ ॥ द्रुपः किंपुरु-
पश्चैव पार्श्वतीर्थो ह्यनामयः । नगर्षाः पश्चिम द्वारं शीघ्रपारोध-
यन्त्विति ॥ ४० ॥ पौरवो वेणुदारिश्च वैदर्भस्योमकस्तथा । रुन्धी-
च भोजाधिपतिस्सूर्यान्तथ समालवः ॥ ४१ ॥ विन्दानुविन्दा-
वावन्स्यो दन्तवक्रश्च वीर्यवान् । द्वागलिः पुरुमित्रश्च विराटश्च
मगीपतिः ॥ ४२ ॥ कौरव्यो मालवश्चैव शनधन्वा विदूरथः ।
भूरिश्वास्त्रिगर्तश्च बाणः पञ्चनदस्तथा ॥ ४३ ॥ उत्तरं नगर-
द्वारमेते दुर्गसदा नृपाः । आरुह्य चागिद्यदन्तां वज्रपतिमगौरवाः ।

पास ही खड़े रहें ॥ ३५ ॥ अबसे मेरे सैनिक इस नगरीको घेर लें
और जब तक मैं इन गोप वसुदेवपुत्र कृष्ण और बलराजको तेज
वाणोंसे न मार लूँ (तब तक पुरीको घेरे रहें) मैं ऐसे बाण
बरसाऊँगा, कि-आकाश की कीलितसा होजायगा ३६-३७
मेरी आज्ञा पा कर राजे इस पुरीकी भूमियोंके छिद्रोंमें शीघ्र ही
चढ़ाई कर इस पुरी पर खड़े रहें ॥ ३८ ॥ नगरीके पश्चिमद्वारके
मद्र कलिङ्गाधिपति चेतितान वान्हीरु काश्मीरराज गोवर्द्ध करुणा-
धिपति द्रुप किंपुरुष पहाड़ी अनामय घेर लें ॥ ३९ ॥ ४० ॥
पुरुवंशी वेणुदारि वैदर्भ सोमक भोजाधिपति रुन्धी मालवमहित
सूर्यान्त अवन्तिदेशके विन्द और अनुविन्द वीर्यवान् दन्तवक्र
द्वागलि पुरुमित्र राजा विराट कौरव्य मालव शनधन्वा विदूरथ
भूरिश्वास्त्रिगर्त बाणासुर और पञ्चनद ये दुर्गघुद्र करनेमें समर्थ
वज्राी समान (चमकते) गौरव वाले राजे उत्तरी ओरके द्वार

उलूकः केतवश्चैव वीरश्यांशुगतस्सुतः । एकलव्यो बृहत्तत्रः
 क्षत्रधर्मा जयद्रथः ॥ ४५ ॥ उत्तर्गोजाश्च शल्यश्च कौरवाः कैकया-
 म्पथा । वैदिशी वामदेवश्च सांकृतिश्च मिनीपतिः ॥ ४६ ॥ पूर्वं
 नगरनिर्व्यूहमेतेष्वायत्तगस्तु नः । दारयन्तो विशावन्तु दाना इव
 बलात्कान् ॥ ४७ ॥ अहं च दरदश्चैव चेदिराजश्च वीर्यवान् ।
 दक्षिणं नगरद्वार पालयामस्सुदंशिताः ॥ ४८ ॥ एवमेवा पुत्री-
 क्षिप्रं समन्ताद्वेष्टिता बलैः । वज्रावपातविषमं प्राप्नोतु तुमुलं
 पगम् ॥ ४९ ॥ गदिनो ये गदाभिस्ते परिधैः परिघायुधाः ।
 अपरे विविधैश्शस्त्रैर्दारयन्तु पुरीमिमाम् ॥ ५० ॥ अथैव नगरी
 होषा विषभोन्वयसंक्रता । कार्या भूमिसमा सर्वा भवद्भिर्वसुधा
 विषैः ॥ ५१ ॥ चतुरङ्गवर्णैर्व्यूह्य जरासन्धो ज्यवस्थितः । अथा-

पर चढ़ कर तहाँ घमसान मचावें ॥ ४१-४४ उलूक केतव वीर
 अंशुमान्का पुत्र एकलव्य बृहत्तत्र क्षत्रधर्मा जयद्रथ उत्तर्गोजा
 शल्य कौरव और कैकय वैदिश वामदेव सिनीपति और सांकृति
 इनके अधीन हमारा नगरीकी पूर्वकी ओरका व्यूह रहे, ये जैसे
 पवन में तैरते तित्तर चित्तर कर डालना हैं इसी प्रकार पुरीकी
 सेनाको विदीर्ण करते हुए आगेको बढ़ें ४५-४७ तथा मैं दरद
 और वीर्यवान् चेदिराज ये भली भौंति कवच पहिर कर नगरके
 दक्षिण द्वारकी ओर रक्षा करते रहें ॥ ४८ ॥ इस प्रकार चारों
 ओरसे शीघ्रही घिर जाने पर इस पुरीको वज्रपातकी समान
 भयंकरदृग्ब गिलना चाहिये ॥ ४९ ॥ गदाधारी पुरुष गदाओं
 में डम पुरीको विदीर्ण करें और हाथोंमें परिघ धारण करने
 वाले पुरुषोंके और दूसरे अनेक प्रकारके शस्त्रोंको धारण करने
 वाले अपने २ अष्ट्र गस्त्रोंमें इस पुरीको विदीर्ण करें ५० आज
 ही आप सब राजे निपगतासे इस नगरीके संकटोंको बड़ा कर
 इसी सारी भूमिको समनल कर दें ५१ इस प्रकार राजा जरा-

भ्यायद्यद् नु युद्धसह सर्वैर्नराधिपैः ॥ ५२ ॥ प्रतिजग्मुर्दशार्हास्तं
 व्यूहानीकाः महारिणः । तद्युद्धमभवद् योरंतेषां देवासुरगोपमम् ।
 अल्पानां बहुभिस्सार्धं व्यतिपक्करथद्विपम् ॥ ५३ ॥ नगरान्निरसृतौ
 दृष्ट्वा वसुदेवसुतायुगौ । क्षुभितं नृवरानीकं त्रस्तसम्मूढवाहनम् ५४
 रथस्थौ दंशिर्नां चैव चेरतुस्तत्र यादवौ । मकरावित संरन्ध्रौ
 समुद्रन्नोभणायुगौ ॥ ५५ ॥ तयोः प्रयुद्धयतोरसंन्ये गतिरासी-
 न्महात्मनोः । आयुधानां पुराणानामादानकृतलक्षणा ॥ ५६ ॥
 ततः खान्निपतन्ति स्म दिव्यान्याहनसम्प्लवे । लोलिहानानि
 दीप्तानि महान्ति सुदृढानि च ॥ ५७ ॥ क्रव्यादैरनुयातानि मूर्ति-
 मन्ति वृद्धन्ति च । तृपिनाभ्याहने भोक्तुं नृपमांसानि वै भृशम् ५८
 दिव्यमग्दामधारीणि त्रासयन्ति च खेचरान् । प्रभया भास-

सन्ध चतुरंगिणी सेनाको व्यूहरचनासे खड़ी करके क्रोधसे उन
 सब राजाओंके साथ यादवों पर चढ़ गया ५२ तब दशार्होंने भी
 अपनी सेनाको व्यूहरचनासे खड़ी कर उन पर धावा किया, उन
 का वह युद्ध देवासुर संग्रामकी समान हुआ थोड़ेसे (यादवों)
 का बहुतसोंके साथ युद्ध होने लगा उनके हाथी और रथ रिल
 मिल गए ५३ वसुदेवके दोनों पुत्रोंको नगरमेंसे निकलते देखते
 ही मनुष्योंमें श्रेष्ठ राजाओंकी सेना और उनके वाहन मूढसे
 होगाए ५४ वे दोनों यादव (शत्रुसेनामें) समुद्रको खलभलादेने
 वाले गगरोंकी समान क्रोधमें भर कर विचरण करने लगे ५५
 उन दोनों महात्माओंका युद्धमें लड़ते २ अपने प्राचीन अस्त्रों
 को ग्रहण करनेका विचार उठा ५६ तब तो आकाशमेंसे युद्ध-
 स्थलमें दिव्य आयुध गिरने लगे वे बड़े २ अस्त्र जीभ लपलपा
 रहे थे और बड़े दृढ़ थे ५७ उनके पीछे कच्चा मांस खाने वाले
 प्राणी दीड़े आरहे थे वे बड़े २ मूर्तिमान् शस्त्र युद्धमें राजाओंका
 मांस चाटनेके लिये लालायितसे दीख रहे थे ५८ वे दिव्य माला

गानानि पतपानानि चाम्बरात् ॥ ५६ ॥ हलं सम्बर्तकं नाम
सौनन्दं मृसलं तथा । धनुषां प्रवरं शार्ङ्गं गदां कौमोदकीं तथा ६०
चत्वार्येतानि तेजांसि विष्णुपहरणानि च । ताभ्यां समवतीर्णानि
यादवाभ्यां महामृधे ॥ ६१ ॥ जग्राह प्रथमं रागो ललामपतिमे
हलम् । सर्पन्वमिव सर्पेन्द्रं दिव्यमालाकुलं मृधे ॥ ६२ ॥ सौनन्दं
च तनश्चोभान्निरानन्दकरं द्विषाम् । सव्येन सात्वतां श्रेष्ठो
जग्राह मुशलात्तमम् ॥ ६३ ॥ दर्शनीयं च लोकेषु धनुर्जलदनिः
स्वनम् । नान्ना शार्ङ्गमिति ख्यातं कृष्णो जग्राह वीर्यवान् ६४
देर्ननिगदितार्थस्य गदा नभ्यापरे करे । निक्षिप्ता कुमुदान्तस्य
नाम्ना कौमोदकीति सा ॥ ६५ ॥ तौ सहप्रहरणां वीरौ साक्षा-
द्विष्णुतनूषणी । समरे रामगोविन्दौ रिपूस्तान्प्रत्ययुद्धयताम् ६६

और (प्रत्यञ्चाफी) रस्सीसे विभूषिता ऐसे कातिमान् थे, कि-
उनको आकाशसे गिरते देख कर उनही प्रभासे पत्नी चौक उठते
थे ५६ संवर्तक नामक हल, सौनन्द नामक मृसल, धनुषोंमें श्रेष्ठ
शार्ङ्ग धनुष और कौमोदकी गदा ६०ये चारों विष्णुके तेजःस्वरूप
आयुष उन दोनों यादवोंके लिये महायुद्धमें (आकाशसे) उतरे
थे ६१ बलरामजीने पहिले ध्वजाकी समान ऊँचे सरकते हुए
सर्पेन्द्रकी सगान और दिव्यमालाओंसे सुशोभित हलको ग्रहण
कर लिया ६२ फिर सात्वतवंशिगोंमें श्रेष्ठ श्रीमान् बलरामजीने
अपने दाहिने हाथमें शत्रुओंके आनन्दको नष्ट करने वाले सौनन्द
नामक उत्तम मृसलको उठा लिया ॥ ६३ ॥ और वीर्यवान्
श्रीकृष्णने लोकोंमें दर्शनीय मेषकी सगान शब्द करने वाले
धनुषोंमें श्रेष्ठ शार्ङ्ग धनुषको उठा लिया ६४ और जो देवताओं
से प्रशंसित अर्थ वाली कुमुदान्त श्रीकृष्णके हाथमें गदा थी वह
कौमोदकी थी ॥ ६५ ॥ विष्णुके शरीरकी सगान शरीर वाले
आयुषभायी राम कृष्ण समरमें शत्रुओंमें जूझने लगे ॥ ६६ ॥

सायुधग्रहो वीरो तावन्गोण्याश्रयायुधो । पूर्वजानुनमंज्ञौ तो
 रामगोविन्दलक्षणौ ॥ ६७ ॥ द्विपत्सु मङ्गिकुर्वार्यो पराक्रान्तौ
 यथेश्वरी । विचेरतुर्थथा देवो वसुदेवसुतायुधो ॥ ६८ ॥ हल
 मुद्यम्य रामस्तु सर्पेन्द्रगिव को पेनः । चचार सगरे वीरो विद्विपा-
 मन्तको यथा ॥ ६९ ॥ विकर्षन्नुद्युन्दानि क्षत्रियाणां महात्म-
 नाम् । चचार रोषं सफलं नामेषु च हयेषु च ॥ ७० ॥ कुञ्ज-
 रान्त्लाङ्गलान्मुशक्ताक्षेपताडितान् । रामो विराजन्समरे निर्म-
 मन्थ यथाचलान् ॥ ७१ ॥ ते वध्यमाना रामेण रणे क्षत्रियपुङ्गवाः ।
 जरासन्धान्तिकं भीताः सगरात् प्रतिजग्मिरे ॥ ७२ ॥ तानुवाच
 जरासन्धः क्षत्रधर्मं व्यवस्थितः । धिमेनां क्षत्रवृत्तिं वः समरे
 कातरात्मनाम् ॥ ७३ ॥ परावृत्तस्य सगरे विरयस्य पलायतः ।
 भ्रूणहत्याभियासह्यं प्रयदन्ति गनीपिणः ॥ ७४ ॥ भीताः कस्मा-

वे आयुधधारी एक दूसरेका आश्रय लेने वाले राम और गोविन्द
 नामक पूर्वज और अनुन वसुदेवजीके दोनों पुत्र पराक्रमी ईश्वरों
 की समान शस्त्राँका अपकार करते हुए सेनामें विचरण करने
 लगे ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ बलराम कोयमें गरे हुए सर्पेन्द्रकी समान
 शस्त्राँके अन्तक वन हलको उठा कर समरमें विचरण करने
 लगे ॥ ६९ ॥ वह युद्धमें महात्मा क्षत्रियोंकी टोलियोंको खेंचने
 लगे और नाम तथा हाथियों पर सफल शोध करने लगे ॥ ७० ॥
 समरमें विराजमान राम पर्वतोंकी समान हाथियोंको हलसे
 पीटने लगे और मूसल फेंक कर मसलने लगे ॥ ७१ ॥ बल-
 रामसे पीटते हुए क्षत्रियपुङ्गव सगरमें भयभीत होकर जरा-
 सन्धकी शरण लेते हुए उसके पास पहुँच गए ॥ ७२ ॥ तब
 क्षत्रधर्ममें स्थित जरासन्धने उन कातरात्माओंसे कहा, कि-
 तुम्हारी क्षत्रवृत्तिको धिकार है ॥ ७३ ॥ विद्वान् पुरुष कहते हैं,
 कि-समरमेंसे लौटने वाले और रथ दूटने पर भागने वाले

मानानि पतनानानि चाम्बरात् ॥ ५६ ॥ हलं सम्बर्तकं नाम
 सौनन्दं मुसलं तथा । धनुषां प्रवरं शार्ङ्गं गदां कौमोदकीं तथा ६०
 चत्वार्येतानि तेजासि विष्णुपहरणानि च । ताभ्यां समवतीर्णानि
 यादवाभ्यां महामृधे ॥ ६१ ॥ जग्राह प्रथमं रागो ललामपतिर्मे
 हतम् । सर्पेन्तमिव सर्पेन्द्रं दिव्यपालाङ्गुलं मृधे ॥ ६२ ॥ सौनन्दं
 च तनुरश्रीपान्निरानन्दरं द्विपाम् । स-येन सात्वतां श्रेष्ठो
 जग्राह मुशलोत्तमम् ॥ ६३ ॥ दर्शनीयं च लोकेषु धनुर्जलदनिः-
 स्वनम् । नान्ना शार्ङ्गमिति ख्यातं कृष्णो जग्राह वीर्यवान् ६४
 देवीनिगदितार्थस्य गदा तभ्यापरे करे । निक्षिप्ता कुमुदात्तस्य
 नाम्ना कौमोदकीनि सा ॥ ६५ ॥ तौ सहप्रहरणौ वीरौ साक्षा
 द्विष्णुतनूषणौ । सपरे रामगोविन्दौ रिपूंस्तान्प्रत्ययुद्धयताम् ६६

और (प्रत्यञ्चाकी) रस्सीसे विभूषित ऐसे कांतिमान् थे, कि-
 उनको आनाशसे गिरते देख कर उनही प्रभामे पत्नी चौक उठते
 थे ५६ संवर्तक नामक हल, सौनन्द नामक मूसल, धनुषोंमें श्रेष्ठ
 शार्ङ्ग धनुष और कौमोदकी गदा ६०ये वारों विष्णुके तेजःस्वरूप
 आयुष उन दोनों यादवोंके लिये महायुद्धमें (आनाशमे) उतरे
 थे ६१ बलगागजीने पहिले भवजाही समान ऊँचे सरकते हुए
 सर्पेन्द्रही समान और दिव्यपालाओंसे मुणोपित हलसे प्रहार
 कर लिया ६२ फिर सात्वतवंशिगोंमें श्रेष्ठ श्रीमान् बलरामजीने
 अपने दाहिने हाथमें धनुषोंके आनन्दही नष्ट करने वाले सौनन्द
 नामक उत्तम मूसलको उठा लिया ॥ ६३ ॥ और वार्गवान्
 श्रीकृष्णने लोकोंमें दर्शनीय मेरुकी समान शत्रु करने वाले
 धनुषोंमें श्रेष्ठ शार्ङ्ग धनुषको उठा लिया ६४ और जो देवताओं
 से प्रशंसित अर्थ वाली कुमुदात्त श्रीकृष्णके हाथमें गदा थी वह
 कौमोदकी थी ॥ ६५ ॥ विष्णुके शरारकी समान शरीर वाले
 आयुषधारी राम कृष्ण राममें शत्रुओंमें जूझने लगे ॥ ६६ ॥

सायुधप्रदो वीरो तावन्पोन्पाश्रयायुधो । पूवजानुनमंज्ञौ तौ
 रामगोविन्दक्षत्रणो ॥ ६७ ॥ द्विपत्सु मन्त्रिकुर्वारो पराक्रान्तो
 यथेश्वरी । विचरतुर्यथा देवो वसुदेवसुतायुधो ॥ ६८ ॥ इत्यु-
 द्यम्य रामस्तु सर्वेन्द्रगिव को पेतः । चचार समरे वीरो विद्विपा-
 मन्तको यथा ॥ ६९ ॥ विकर्षन्थष्टन्दानि क्षत्रियाणां महात्म-
 नाम् । चकार रोषं सफलं नामेषु च ह्येषु च ॥ ७० ॥ कुञ्ज-
 रौन्लाङ्गलक्षितान्मुशनाक्षेपताडितान् । रामो विराजन्समरे निर्म-
 मन्थ यथानलान् ॥ ७१ ॥ ते वध्यमाना रामेण रणे क्षत्रियपुङ्गवाः ।
 जरासन्धान्तिकं भीताः सगरात् प्रतिजग्गिरे ॥ ७२ ॥ तानुवाच
 जरासन्धः क्षत्रयमं व्यवस्थितः । धिगेनां क्षत्रवृत्तिं चः समरे
 कातरात्मनाम् ॥ ७२ ॥ परावृत्तस्य समरे विरथस्य पलायतः ।
 भ्रूणहत्यामिवासर्वा प्रचदन्ति मनीषिणः ॥ ७४ ॥ भीताः कस्मा-

वे आयुधभारी एक दूसरेका आश्रय लेने वाले राम और गोविन्द
 नामक पूर्वज और अनुन वसुदेवजीके दोनों पुत्र पराक्रमी ईश्वरों
 की सगान शत्रुओंका अथरार करते हुए सेनामें विचरण करने
 लगे ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ बलराम कोपमें भरे हुए सर्वेन्द्रकी समान
 शत्रुओंके अन्तक बन हलकी उठा कर समरमें विचरण करने
 लगे ॥ ६९ ॥ वह युद्धमें महात्मा क्षत्रियोंकी टोलियोंको खेंचने
 लगे और नाग तथा हाथियों पर सफल गोध करने लगे ॥ ७० ॥
 समरमें विराजमान राम पर्वतोंकी सगान हाथियोंको हलसे
 पीटने लगे और मूमल फेंक कर मसलने लगे ॥ ७१ ॥ बल-
 रामसे पीटते हुए क्षत्रियपुङ्गव समरमें भयभीत होकर जरा-
 सन्धकी शरण लेते हुए उसके पास पहुँच गए ॥ ७२ ॥ तब
 क्षत्रधर्ममें स्थित जरासन्धने उन कातरात्माओंसे कहा, क्रि-
 तुम्हारी क्षत्रवृत्तिको धिकार है ॥ ७३ ॥ विद्वान् पुरुष कहते हैं,
 क्रि-समरमेंसे लौटने वाले और रथ दूटने पर भागने वाले

निवर्तन्त्रं त्रिनेतां क्षत्रवृत्तिताम् । क्षिप्रं सर्वे निवर्तन्त्रं मम वाक्येन
चोदिताः ॥ ७५ ॥ अथवा तिष्ठन् रथैः प्रेक्षकास्समवस्थिताः ।
यावदेतौ रणे गोपीं प्रेषयामि यमक्षयम् ॥ ७६ ॥ ततस्ते क्षत्रिया-
स्सर्वे जरासन्धेन नोदिताः । सृजन्तश्शरजालानि हृष्टा योद्धुं
व्यवस्थिताः ॥७७॥ ते ह्यैः काञ्चनापीडै रथैश्चाम्बुदनादिभिः ।
नादैश्चाम्बुदसंक शैर्महामात्रप्रचोदितैः ॥ ७८ ॥ सतनुत्रास्सनि-
स्त्रिंशास्सपताकायुधध्वजाः । स्वरोपितधनुष्मन्तस्मत्तूणीरा-
स्सतोमराः ॥ ७९ ॥ सञ्जनासादिनश्चैव चारुचामरबीजिताः ।
रणे तेधिगता रेजुस्स्यन्दनस्था महीक्षितः । ८० ॥ ते युद्धरागा
रथिनो व्यगाहन्त युधाम्बराः । गदाभिश्चैव गुर्वीभिः क्षेपणीयैश्च
सृष्टरैः ॥८१॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवानां नन्दिवर्द्धनः । सुपर्ण-
ध्वजमास्थाय कृष्णस्तु रथमुत्तमम् ॥ ८२ ॥ समभ्याज्जरासंधं

क्षत्रियको भ्रूणहत्याकी सगान घोष पाप लगता है ॥ ७४ ॥
अरे ! तुम क्यों डर रहे हो ! तुम्हारे इस क्षत्रियपन पर धिक्कार
है अरे! तुम मेरे वाक्यसे उफस कर तो शीघ्र ही लौट आओ ७५
अथवा जब तक मैं इन गोपीको रणमें यमराजके घर भेजूँ तब
तक रथमें बैठ कर दर्शक ही बने खड़े रहो (भागो, तो मत) ७६
तब तो जरासन्धके वाक्यसे प्रेरित होकर वे सब क्षत्रिय हर्षित
होते हुए बाणोंका जाल पूरते हुए लौट आये ॥ ७७ ॥ वे
काञ्चनकी दूररवाले और मेघकी सगान गड़गड़ाहट करनेवाले
रथोंमें बैठ बड़े वेगसे मेघकी सगान नाद करते हुए (लौट
आये) ॥७८॥ वे रणमें रथोंमें बैठे हुए कवच नलवार पताका
आयुध ध्वजा तूणीर और तोगरभारी धनुष वाले राजे सवारों
के चापर करने पर शोभा पारहे थे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ वे युद्ध
मेगी गोभाओंमें श्रेष्ठ रथी बड़ी २ गदा गोफनीं और सृष्टरोंसे
सेनाको पथने लगे ॥ ८१ ॥ इसी समय देवताओंके आनन्दको

शरैर्विव्याध चाष्टभिः । सारथि चास्य विव्याध पञ्चभिर्निशितै-
 शरैः ॥ ८३ ॥ जघान तुरंगाश्वागौ यतमानस्य वीर्यवान् । तं
 कृच्छ्रगतगाहाय चित्रसेनो महारथः ॥ ८४ ॥ सेनानीः कैशि-
 कश्चैव कृष्णं विविधतुः शरैः । त्रिभिर्विव्याध संसक्तं बलदेवं च
 कैशिकः ॥ ८५ ॥ बलदेवो धनुश्चास्य भल्लेनागौ द्विधाकरोत् ।
 जरेनाभ्यर्दयन्नापि तानरीञ्छरवृष्टिभिः ॥ ८६ ॥ बाहुभिर्वहुधा
 वीरान्समन्तात्स्यर्णभूयणैः । तंचित्रसेनस्तरन्धो विव्याध नव-
 पिशरैः ॥ ८७ ॥ कैशिकः पञ्चभिश्चापि जरासन्धश्च सप्तभिः ।
 त्रिभिस्त्रिभिश्च नाराचोस्तान्त्रिभेद जनार्दनः ॥ ८८ ॥ पंचभिः
 पञ्चभिश्चैव बलदेवः शितैश्शरैः । रथं चैवास्य चिच्छेद निव
 सेनस्य वीर्यवान् ॥ ८९ ॥ बलदेवो धनुश्चास्य भल्लेनागौ द्विधा-

बदाने वाले श्रीकृष्ण गरुडकी ध्वजा वाले उत्तमरथमें बैठ जरा
 सन्ध पर चढ़ गए और आठ बाणोंसे उसको बीच डाला और
 पाँच बाणोंसे उसके सारथिको घायल किया ॥ ८३ ॥ ८३ ॥
 फिर वीर्यवान् श्रीकृष्णने चेष्टा करने वाले जरासन्धके घोंडोंको
 मार डाला, जरासन्धको कष्टमें गड़ा देख कर महारथ चित्रसेन
 और सेनापति कैशिक कृष्णको बाणोंसे घायल करने लगे और
 कैशिकने युद्धमें तन्लीन बलदेवजीको तीन बाणोंसे घायल कर
 दिया ॥ ८४ ॥ तब बलदेवजीने भल्ल नामक बाण मार कर
 उसके धनुषके दो टुकड़े कर दिये, और उन शत्रुओंको वेगपूर्वक
 बाणवर्षा कर बदाने लगे ॥ ८५ ॥ ८५ ॥ और सुवर्णके आभू-
 षण वाली भुजाओंसे बाण मार कर वीरोंको (नष्ट करने लगे)
 तब तो चित्रसेनने उनके नौ बाण मारे ॥ ८७ ॥ कैशिकने पाँच
 बाण मारे और जरासन्धने सात बाण पारे, तब विष्णुने उन
 सबको तीन २ बाण मार कर घायल किया ॥ ८८ ॥ तदनन्तर
 बलदेवने भी पाँच २ तेज बाण मार कर उनको घायल किया,

करोत् । स निङ्गन्नधन्वा विरथो गदामादाय वीर्यवान् ॥ ६० ॥
 अभ्यधावत्सुसंरब्धो जिघांसुर्मुशलायुधम् । मिसृत्तस्तु नारा-
 चांश्चित्रसेनवधैपिणः । धनुश्चिच्छेद रामस्य जरासन्धो महा-
 वलः ॥ ६१ ॥ गदया च जघानाश्वान्क्रोधात्स मगधेश्वरः । राम
 चाभ्यद्रवहीरो जरासन्धो महावलः ॥ ६२ ॥ आदाय मुशलं
 रामो जरासन्धमुपाद्रवत् । तयोस्तद्युद्धमभवत् परस्परवधैपिणोः ।
 चित्रसेनस्तु संसक्तं दृष्ट्वा रामेण मीगधम् । रभगन्धं समारुह्य जरा-
 सन्धपवारयत् ॥ ६४ ॥ ततो बलेन महता गजानीकेन चाप्यथा ।
 उभयोरन्नरे नाभ्यां सङ्कुलं समपद्यत ॥ ६५ ॥ ततः सैन्येन महता
 जरासन्धोऽभिसंठतः । रामकृष्णाग्रगोन् भोजानाससाद् महा-
 वलः ॥ ६६ ॥ तत्र प्रक्षुभितस्येव सागरस्य महास्वनः । प्रादु-
 फिर वीर्यवान् बलदेवजीने चित्रसेनके रथको तोड़ डाला ८६
 फिर बलदेवजीने भल्ल मार कर युद्धमें उसके धनुषके दो टुकड़े
 कर दिए, वह दृष्टे हुये धनुष वाला रथरहित वीर्यवान् चित्रसेन
 क्रोधमें भर कर गदा उठा मुसलायुध बलदेवजीको मारनेके लिये
 दौड़ा ॥ ६० ॥ उसी समय चित्रसेनका वध करनेकी इच्छासे
 घाण छोड़ने वाले रामके धनुषको महाबली जरासंधने काट
 डाला ॥ ६१ ॥ फिर क्रोधमें भरे हुये मगधेश्वरने गदासे उसके
 घोड़ोंको मार डाला इस प्रकार वीर जरासन्धने बलरामजी पर
 हमला किया ॥ ६२ ॥ तब तो बलदेवजी भी मूसल लेकर जरा-
 सन्ध पर झगटे और उन परस्परका वध चाहने वालोंमें युद्ध
 होने लगा ॥ ६३ ॥ चित्रसेन जरासन्धको बलगमनीसे भिड़ता
 देख कर दूसरे रथ पर बैठ जरासन्धको रोकने लगा ॥ ६४ ॥
 तब उन दोनोंका सेनासे और हस्तिसेनासे घोर युद्ध होने लगा ६५
 इतनेमें ही बड़ी भारी सेनासे घिरा हुआ महाबली जरासन्ध राम-
 कृष्णको अग्रभागमें रखने वाले भोजोंमें भिड़ गया ६६ उस

र्वभूव तुमुलः सेनयोरुभयोरपि ॥६७॥षेणुभेरीमृदङ्गानां शंखानां
 च सहस्रशः । उभयोः सेनयो राजन् प्रादुरासीन्महास्वनः ६८
 द्द्वेडितास्फोटितोत्कृष्टस्तुमुलः सर्वतोऽभवत् । उत्पपात रजश्चापि
 खुरनेपियमुद्धतम् ॥६९॥ समुद्यतगहाशत्राः गृह्णीतशरासनाः ।
 अन्वोन्यगभिगजन्तः शूरास्तत्रावतस्थिरे ॥ १०० ॥ रथिनः
 सादिनश्चैव पत्तयश्च सहस्रगः । गजश्चातिवत्पारतन समु
 त्पेतुः समन्ततः ॥ १ ॥ स सन्निपातस्तदुल्लसत्यवत्वा प्राणान-
 वर्तत । वृष्णिगभिः सह योधानां जरासन्धस्य दारुणः ॥ २ ॥
 ततः शिनिरनाभृष्टिर्विभ्रुविपृथुराहुकः । बलदेवं पुरस्कृत्य सैन्य-
 स्गार्धेन दंशिताः ॥३॥ दक्षिणं पक्षमासेदुः शत्रुसैन्यस्य भारत ।
 पालित चेदिराजेन जगामन्धेन वा विभो ॥ ४ ॥ उदीच्यैश्च

सगय दोनों सेनाओंमें लुब्ध हुए समुद्रकी सभान तुमुल शब्द होने
 लगा ॥ ६७ ॥ हे राजन् ! उस समय दोनों सेनाओंमें सीकड़ों
 नेणु भेरी मृदंग और शंखोंका बड़ा शब्द हुआ ॥ ६८ ॥ उस
 समय बाँस फटकारनेका श्रुजाओंको थपथानेका और गाजनेका
 शब्द चारों ओर होने लगा और खुर तथा नेपिसे उड़ी हुई
 धूलभी अट गई ॥ ६९ ॥ शूर उस समय अपने शस्त्रोंको उठा
 कर और धनुषको प्रहण कर एक दूसरेके सामने गर्ज २१कर खड़े
 होगए ॥ १०० ॥ तब रथी सवार सहस्रों पैदल और अतिवली
 हाथी तहाँ आने लगे ॥ १०१ ॥ तब तो जरासन्धके योधा
 वृष्णिगोंके साथ अपने गणोंका मोह छोड़ कर लड़ने लगे १०२
 तब तो शिनि अनादृष्टि बभ्रु विपृथु और आहुक बलदेवजीको
 आगे करके आधी सेनाको घेर कर खड़े होगए ॥ १०३ ॥ और
 चेदिराज और जरासन्धसे पालित शत्रुसेनाके दारिने मुहाने पर
 पहुँच गए ०४ और अपने गणोंका मोह छोड़ महानीय उत्तर
 देशी शक्य शाल्व आदिके साथ अपने गणोंका मोह छोड़ बाण

गदावीर्यैः शल्यशाल्वादिभिर्नृपैः । सृजन्तः शरवर्षाणि समभि-
न्यक्तगीविताः ॥ ५ ॥ अत्रगाहः पृथुः कंकुः शतद्युम्नो विदू-
रथः । हृषीकेशं पुरस्कृत्य सैन्यस्वार्थेन दंशिताः ॥६॥ भीष्मके-
णाभिगुप्तश्च रुक्मिणा च महात्मना । देवसेनापि राजेन्द्र तथा
मद्रेश्वरेण च ॥ ७ ॥ प्राच्यांश्च दक्षिणान्द्यौश्च गुप्तवीर्यबला-
न्विनैः । तेषां च युद्धमभवत् समभित्यक्तगीवितम् । शक्यत्पृष्टि-
गाप्याणोद्यान सृजनामशनिस्वनान् ॥ ८ ॥ सात्याकिश्चित्रकः
श्यामो युधुधानश्च वीर्यवान् । राजाधिदेवो मृदुरः श्वफल्कश्च
महारथः ॥९॥ सत्राजिच्च पसेनश्च बलेन महता वृताः । व्यूहस्य
पक्ष ते सर्वे मतीपुर्द्विपतां मृधे ॥१०॥ व्यूहस्यार्थं समासेदुर्मृदु-
रेणाभिरत्नितम् । राजभिश्चापि बहुभिर्वेणुदारिमुखैः सह १११
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि मथुरोपरोधे
युद्धवर्णनं नाम पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

वर्षा कर युद्ध करने लगे १०५ अत्रगाह पृथु कंकु शतद्युम्न विदू-
रथ ये श्रीकृष्णको धामे भर वागी आधी सेनागी घेर कर खड़े
होगए १०६ आगे उनका महान्मा कमी आर भीष्मक देनक तथा
राजेन्द्र मद्रेश्वर पुत्रिये दक्षिणनी गुप्तबलवालोंके साथ जीवन
का मोह छोड़ कर युद्ध होने लगा, वे शक्ति ष्टि और बज्र
की समान शक्त करने वाले बाणोंको छोड़ कर युद्ध करने
लगे १०७-१०८ सात्याकि चित्रक श्याम वीर्यवान् युधुधान
राजाधिदेव मृदुर और महारथ श्वफल्क सत्राजित् और पसेन
ये वही भारी सेनासे फिर कर व्यूहके पक्षमें हो शत्रुओंके सामने
जा युद्ध करने लगे १०९-११० ये मृदुरसे रत्नित आधा व्यूह
वेणुदारि आदि बहुतसे राजाओंसे युद्ध करने लगा १११
पंतीसवा अध्याय समाप्त ३५

वीशम्पायन उवाच । ततो युद्धानि वृष्णीनां वभ्रुः सुमहां
 तथा । मागधस्य महापात्रैर्नृपैर्नानुयायिभिः ॥ १ ॥ रुक्मिणा
 वासुदेवस्य भीष्मप्रेणाहुकस्य च । क्रथस्य वसुदेवेन कैशिकस्य
 तु वभ्रुणा ॥ २ ॥ गदेन चेदिराजस्य दन्तवक्रस्य शङ्कुना । तथा-
 नैर्वृष्णिवीराणां नृपाणां च महान्पनाम् ॥ ३ ॥ युद्धमासीद्धि
 सैन्यानां सैनिकैर्भरतर्षभ । अत्रानि पंच चौकं च षट् सप्तौ च
 दारुणम् ॥ ४ ॥ गर्जगन्गा हयोरशवाः पदाताश्च पदातिभिः । रथै
 रथा विमिश्राश्च योधा युयुधिरे नृप ॥ ५ ॥ जरासन्धस्य नृपते
 रामेणासीत् सपागणः । महेन्द्रस्येव वृत्रेण दारुणो रोगहर्षणः ६
 अवेद्य रुक्मिणीं कृष्णो रुक्मिणं न व्यथोपयत् । ज्वलनार्काशु-
 संकाशानाशीविपविपोपमान् ॥ ७ ॥ चारयागास कृष्णो वी शरां
 स्तस्य तु शिक्तया । इत्पेषां सुमहानासीद्धनौघावां परिक्तयः ८

वीशम्पायनजीने कहा, कि तब तो मागध राजके अनुयायी
 महाकाय राजाओंसे वृष्णिगोंके वड़े २ युद्ध होने लगे १ उस
 समय वासुदेवका रुक्मीके साथ, आहुकका भीष्मकके साथ, क्रथरा
 वसुदेवके साथ और कैशिक का वभ्रुकके साथ, गदका चेदिराजके
 साथ और दन्तवक्ररुका शङ्कुके साथ और हे भरतर्षभ ! दूसरे
 राजाओंके दूसरे वृष्णिवीरोंके साथ युद्ध होने लगे और वह
 युद्ध सत्ताईस दिन तक होते रहे २-४हे नृप ! हाथीसवार योधा
 हाथीसवारासे घुड़सवार घुड़सवारोंसे पैदल पैदलोंसे और रथी
 योधा रथियोंसे मिल कर युद्ध करने लगे ५हे नृपते ! जरासन्धका
 बलरामजीके साथ, महेन्द्रका वृत्रके साथ जैसे दारुण संग्राम
 हुआ या तैसा संग्राम होने लगा ६ श्रीकृष्णने रुक्मिणीका विचार
 करके रुक्मीके नहीं मारा और उसके सर्प और अग्नि और
 सूर्यकी किरणकी समान वाणोंसे अपनी चतुराईसे हटाने लगे,
 इस प्रकार इन दोनों सेनाओंका बड़ा संहार होने लगा ८ हे

मयोः सेनयो राजन् मांसशोणितकर्दमः । कवन्धानि समुत्सृज्युः
 बहूनि समन्ततः ॥ ६ ॥ तस्मिन् विपदे गोधानां संख्यावृत्ति-
 ज्ञाणि च । रथी रागो जरासन्धं शरैराशीविपोपमैः ॥ १० ॥
 आवृण्वन्नभयद्वीरस्तं च राजा समागमः । अभ्यर्तत वेगेन
 स्पन्दनेनाशुगामिना ११ अन्योन्यं विविधैरर्जविध्वा विध्वा विने-
 दतुः । तौ क्षीणशस्त्रौ विरथौ हताश्वौ हतसारथी ॥ १२ ॥ गदे
 हीत्ना विक्रान्तौ अन्योन्यमभिधावताम् । कम्पयन्तौ भुवं
 वीरौ तावुद्यतगदावुर्धौ ॥ १३ ॥ ददर्शते महात्मानौ गिरी
 सशिखराशिव । व्युपारमन्त युद्धानि पश्यतां तौ महाभुजौ ।
 संरन्धावभिधावन्तौ गदायुद्धेषु विश्रुतौ ॥ १४ ॥ उभौ तौ परमा-
 चार्यौ लोके ख्यातौ महावर्तौ । मत्ताशिव गर्जौ युद्धे तावन्न्योन्य-

राजन् दोनों सेनाओंमें मांस और रक्तकी कीच हो गई और बहुत
 से कबंध चागें औरसे उठने लगे ६ (बाण मारने पर एक ही
 कबंध उठ सकता है) परन्तु यहाँ तो कबंधोंको देख कर गिनती
 करना ही कठिन था) और रथी बलराम सर्पकी समान बाण
 जरासन्धके मारने लगे और वीर राजा मागध भी वेगगामी रथ
 में झूठ कर उसको बाणोंसे छाता हुआ दौड़ आया १०-११ वे
 दोनों परस्परके अनेक प्रकारके अस्त्रोंसे बंध कर शस्त्रोंके क्षीण
 हो जाने पर रथरहित हो गए और घोड़े और सारथी मर जाने पर
 वे गर्जने लगे १२ फिर वे दोनों पराक्रमी गदा ले कर एक दूसरेके
 ऊपर दौड़े वे दोनों गदाओंका उठा कर पृथ्वीको कँपाने लगे १३
 उस समय वे दोनों महात्मा शिवर्षों वाले दो पर्वतोंकी समान
 दीख रहे थे, उन गदायुद्धमें प्रसिद्धि पाये हुए महाभुज वीरोंको
 क्रोधमें भर कर लड़ते देख कर सब ओरके युद्ध होने बन्द हो गए
 और योधा उन दोनोंके युद्धोंको देखने लगे ॥ १४ ॥ वे : दोनों
 महावली संसारमें (गदाके) परमाचार्य प्रसिद्ध थे, वे दोनों मद-

गयुधपताम् ॥ १५ ॥ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च समहर्षिणः ।
 समंनतश्चाप्सरासः समानग्मुः सहस्रशः ॥ १६ ॥ तद्देवयज्ञगन्धर्व
 महर्षिभिरलंकृतम् । शुशुभेऽभ्यधिकं राजन् दिवं ज्योतिर्गणै
 रिव ॥ १७ ॥ अग्निदुदाव रामं तु जरासन्धो महाबलः । सव्यं
 भण्डलमाश्रित्य बलदेवस्तु दक्षिणम् ॥ १८ ॥ महरन्तो ततोऽन्योन्यं
 गदायुद्धनिशारदौ । दन्ताभ्यागिव मातंगौ नादयन्तो दिशो
 दश ॥ १९ ॥ गदानिपातो रामस्य शुश्रुवेऽशनिनिःस्वनः । जरा-
 सन्धस्य च रणे पर्वतस्येव दीर्यतः ॥ २० ॥ न रम कम्पयते
 रामं जरासन्धकरन्युता । गदा गदाभृतां श्रेष्ठं विन्ध्यं गिरिमिवा-
 निलः ॥ २१ ॥ रामस्य तु गदावेगं वीर्यात् स मगधेश्वरः । सेहे
 धैर्येण महता शिक्तया च व्यपोहयत् ॥ २२ ॥ एवं तौ तत्र समामे

पत्त हाथियोंकी समान युद्ध करने लगे १५ उस समय चारों
 ओरसे देवता गन्धर्व सिद्ध और महर्षि तथा सहस्रों अप्सरायें
 आने लगीं १६ ॥ जैसे नक्षत्रोंसे अलंकृत आकाश शोभा पाता
 है, इसी प्रकार देवता यज्ञ गन्धर्व और महर्षियोंसे अलंकृत
 (युद्धस्थल) शोभा पाने लगी १७ उस समय महाबली जरा-
 सन्ध दक्षिण भण्डल करके दौड़ा और बलदेवजी चापें मंडल
 से जरासन्ध पर चढ़ गए १८ जैसे हाथी दोंतोंसे प्रहार कर
 गरजते हैं, इसी प्रकार वे दोनों गदायुद्ध निशारद एक दूसरे
 पर प्रहार कर दहाड़ने लगे १९ बलरामजीकी गदा गिरनेका
 शब्द वज्र गिरनेकी समान दारुण मतीत होता था और रणमें
 जरासन्धकी गदाका शब्द फटते हुए पहाड़के शब्दकी समान
 होरहा था २० जैसे पवन विन्ध्याचल पर्वतको नहीं कँपासकता
 इसी प्रकार जरासन्धके हाथसे पड़ी हुई गदा - बलदेवजीको न
 कँपा सकी २१ उस मगधेश्वरने वीर्यके कारण धैर्य धारण कर
 अपनी बड़ी भारी शिक्ताके कारण रामके गदावेगको सह लिया

हन्तुं शुकुर्षहावलाः ॥ ३७ ॥ अज्ञौहिण्यश्च तस्यासन् विशतिश्च
गहागने । जरासन्धस्य नृपतेस्तदर्थं याः सभागताः ॥ ३८ ॥
अजत्वाद्गभिभूतास्तु वृष्णगो भरतर्षभ । वार्हद्वयेन राजेन्द्र
राजभिः सहितेन च ॥ ३९ ॥ भूयः कृत्वोद्यमं प्रायाद्यादवान्
कृष्णपालितान् । जिन्या तु पागध्रं संगमे जरासन्धं महीपतिम् ।
विहरन्ति स्म सुग्विनो वृष्णिर्सिंहा महारथाः ॥ ४० ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे त्रिष्णुपर्वणि जरासन्धाप-
यानं नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

दौशम्पायन उवाच । स कृष्णस्तत्र बलवान् रोहिणीयेन सद्गतः ।
मथुरां यादवाकीर्णां पुरीं तां सुखमावसत् ॥ १ ॥ प्राप्तयौवन-
देहस्तु युक्तो राजश्रिया विभुः । चचार मथुरां भीतः सवनाकर-
भूषणाम् ॥ २ ॥ कम्यच्चित्तथ कालस्य राजा राजगृहेश्वरः ।
जरासन्धसे अठारह युद्ध क्रिये ये तत्र भी वे उसको न गारसके
थे ॥ ३७ ॥ हे महामते राजन् ! जरामन्धके साथ बीस अज्ञौ-
हिणी सेनाएँ आई थी ॥ ३८ ॥ हे राजेन्द्र ! वृष्णि कम ये
इसलिए वृद्धद्रुपका पुत्र राजाओंको लेकर उन पर बार बार
आक्रमण कर देता था ॥ ३९ ॥ फिर उसने उद्योग करके
कृष्णपालित यादवों पर आक्रमण करा महीपति जरासन्धको जीत
कर महारथी वृष्णिर्सिंह सुग्वपूर्वक विहार करने लगे ॥ ४० ॥
छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-बलवान् श्रीकृष्ण रोहिणीपुत्रके
साथ यादवोंको साथ ले सुखपूर्वक विहार करने लगे ॥ १ ॥
और वह श्रीमान् अपने शरीरमें यौवनके चिन्ह प्रकट होने पर
राजश्रीसे शोभायमान हो बाग और खानोंके प्राभूषण धारण
करने वाली मथुरापुरीमें प्रसन्न होकर विचरण करने लगे । २ ।
कुछ समय बाद उस राजगृहेश्वर प्रतापवान् राजा जरा-

सस्मार निहतं कंसं जरासन्धः प्रतापवान् । युद्धाय योजितो
भूयो दुहितृभ्यां गहीयतिः ॥ ३ ॥ दश सप्त च संग्रामान् जरा-
सन्धस्य यादवाः । ददुर्न चैनं सगरे हन्तुं शुकुर्महारथाः ॥ ४ ॥
ततो मागंधराट् श्रीमांश्चतुरङ्गवल्गान्वितः । भूयोऽप्यष्टादशं कर्तुं
संग्रामं स सपारभत् ॥ ५ ॥ वीलच्यात् पुनरेवासौ राजराजो
गृहेश्वरः । जरासन्धो बली श्रीमान् पाकशासनविक्रमः ॥ ६ ॥
स साधनेन महता बृहद्रथसुतो बली । कृष्णस्य वधमन्विच्छन्
भूयो वी संन्यवर्तत ॥ ७ ॥ तं श्रुत्वा सहिताः सर्वे निवृत्तं मगः
पेश्वरम् । यादवा मन्त्रयाणामुर्जरासन्धभयादिताः ॥ ८ ॥ ततः
प्राह महातेजा विकटुर्नयकोविदः । कृष्णं कमलपत्राक्षमुग्रसेनस्य
मृण्वतः ॥ ९ ॥ भूयतां तान गोविन्द कुलस्यास्य समुद्भवः ।
श्रूयतामभिधास्यापि प्राप्तकालमहं ततः । युक्तं चेन्मन्यसे साधो

सन्धको कंसका स्मरण होआया और अपनी पुत्रियोंके बहनेसे
वह युद्धके लिये सन्नद्ध होगया, ॥३॥ महारथी यादवोंने जरा-
सन्धसे सत्रह संग्राम किये, परन्तु वह उसे मार न सके ॥ ४ ॥
तदनन्तर श्रीमान् मागंधराजने चतुरङ्गिणी सेनाको लेकर फिर
अठारहवां संग्राम करना आरम्भ करदिया ॥५॥ राजा राज-
गृहेश्वर लज्जित होरहा था, अतएव इन्द्रकी सपान विकभी
बली बृहद्रथके पुत्र राजा जरासन्धने कृष्णका वध करनेकी इच्छा
से फिर बड़ाभारी सागान करके (पथुरा पर) चढ़ाई की ६-७
मागपेश्वरको फिर चढ़कर आते सुन यादवोंने जरासन्धके
भयसे डरकर मन्त्रणा करना आरम्भ की ॥ ८ ॥ उस समय
नीतिचतुर विकटुने उग्रसेन सुन सके इसप्रकार कमलदलनयन
श्रीकृष्णसे कहा, कि-हे तात ! हे गोविन्द ! आप इस कुलकी
उत्पत्तिको सुनिये इस समय इसका समय है अतः मैं इसको
कहता हूँ हे साधो ! यदि मेरे वचनको उचित समझो तो ग्रहण

करिष्यसि वचो मम ॥ १० ॥ यादवस्यास्य वंशस्य समुद्भव-
मशेषतः । यथा मे कथितः पूर्वं व्यासेन विदितात्मना ॥ ११ ॥
आसीद्राजा मनोर्वंशे श्रीमानिन्द्रवाकुसम्भवः । हर्यश्च इति विख्यातो
महेन्द्रसमविक्रमः ॥ १२ ॥ तस्यासीद्विदिता भार्या मधोर्दैत्यस्य वै
सुता । देवी मधुमती नाम यथेन्द्रस्य शची तथा ॥ १३ ॥ सा
यौवनगुणोपेता रूपेणाप्रतिमा भुवि । मनोरथकरी राज्ञः प्राणै-
भ्योपि गरीयसी ॥ १४ ॥ दानवेन्द्र कुले जाता सुश्रोणी काम-
रूपिणी । एकपत्नीव्रतधरा खेचरा रोहिणी युथा ॥ १५ ॥ सा
तमिन्द्रवाकुशार्दूलं कामयामास कामिनी । स कदाचिन्नरश्रेष्ठो
भ्रात्रा ज्येष्ठेन माधवः ॥ १६ ॥ राज्यान्निरस्तो विश्वस्तः सोऽयोध्या

कर लेना ॥ १० ॥ विदितरत्ना व्यासजीने यादववंशकी उत्पत्ति
का मुझसे पूर्ण रीतिसे वर्णन किया था ॥ ११ ॥ मनुके वंशमें
इन्द्रवाकुका पुत्र श्रीमान् हर्यश्च हुआ था, वह पराक्रममें महेन्द्रकी
समान प्रसिद्ध था ॥ १२ ॥ उसकी प्रिय भार्या मधु दैत्यकी पुत्री
थी उस देवीका मधुमती नाम था और वह देवेन्द्रकी शचीकी
समान थी ॥ १३ ॥ वह यौवनके गुणोंसे युक्त थी और पृथ्वी
में अप्रतिम रूपवती थी और राजाके मनोरथके अनुसार चलती
थी अतएव वह राजाको प्राणोंसे भी अधिक प्यारी थी ॥ १४ ॥
वह दानवेन्द्रके कुलमें उत्पन्न हुई कामरूपिणी सुश्रोणी आकाश-
चारिणी रोहिणीकी समान एक पत्नीव्रत धारण करने वाली
थी ॥ १५ ॥ उस कामिनीने इन्द्रवाकुशार्दूलकी इच्छा की, हे
माधव ! एक समय उस नरश्रेष्ठको उसके बड़े भाईने राज्यमेंसे
निकाल दिया तब भी ज्येष्ठ भाईके लोभी होनेपर भी वह उसमें
श्रद्धा रखता रहा और उसने अयोध्यापुरीको त्याग दिया,
तब वह अन्य परिवार वाला अपनी प्रियाके साथ वनमें रण
करने लगा उस समय उस कमलनेत्रने (अपनी भार्यासे कुछ)

सम्परित्यजत् । स तदाऽप्यपरीवारः प्रियया सहितो वने १७
 रेमे समेत्य कालज्ञः प्रोवाच कमलेक्षणः । भ्रात्रा विनिष्कृतं
 राज्यात् मोवाच कमलेक्षणा ॥ १८ ॥ एहागच्छ नरश्रेष्ठ त्यज
 राज्यकृतां स्पृहाम् । गच्छावः सहितो वीर मधोर्मम पितुर्गृहम् १९
 रम्यं मधुवनं नाम कामपुष्पफलद्रुमम् । सहितो तत्र रंस्यावो
 यथा दिवि गतौ तथा ॥ २० ॥ पितुर्मे दयितस्त्वं हि मातुर्मम
 च पार्थिव । मत्प्रियार्थं प्रियतरो भ्रातुश्च लवणम्य वै ॥ २१ ॥
 रंस्यावस्तत्र सहितो राज्यस्थाविव कामगौ । तत्र गत्वा नरश्रेष्ठ
 ह्यमराविव नन्दने । भद्रन्ते विहरिष्यावो यथा देवपुरे तथा २२
 तं त्यजाव महाराज भ्रातरं तेऽभिमानिन्म् । आवगोर्द्वेषिणं
 नित्यं मत्तं राज्यमदेन वै ॥ २३ ॥ शिगिर्म गहितं वासं भृत्य-

कहा उस समय जिसके भाईने निकाल दिया था उस अपने पति
 से उस कमलदलनयनीने कहा, कि ॥ १७ ॥ १८ ॥ हे नरश्रेष्ठ
 आप राज्यकी स्पृहाको त्याग कर आइये और हे वीर ! हम
 दोनों पिता मधुनीके घर चलें ॥ १९ ॥ मेरे पिताके बनकर नाम
 मधुवन है और उसमें यथेष्ट फल पुष्प और वृक्ष हैं, हम दोनों
 तहाँ पर स्वर्गकी समान क्रीड़ा करेंगे ॥ २० ॥ हे राजन् ! तुम
 मेरे पिताके प्रिय हो और मेरी माता भी तुमपर स्नेह रखती है
 और तुम मेरा प्रिय करनेवाले हो, इसलिये मेरा भाई लवण
 भी तुमसे प्रेम करेगा ॥ २१ ॥ हम दोनों तहाँपर अपने राज्य
 की समान इच्छानुसार विचरण करेंगे, हे नरश्रेष्ठ ! जैसे देवता
 नन्दनवनमें और देवपुरमें विहार करते हैं, इसीप्रकार हम तहाँ
 विहार करेंगे, आपका कल्याण होगा ॥ २२ ॥ हे राजन् ! हमसे
 द्वेष करनेवाले और राज्यपदसे मत्त अपने अभिमानी भाईको
 त्याग दीजिये ॥ २३ ॥ ऐसे गहित प्रकारसे निवास करनेको
 शिक्कार है और भृत्यकी समान दूसरेका आश्रय लेनेको भी

वच्च पराश्रयम् । गच्छावः सहितौ वीर पितुर्मै भवन्नान्तिकम् २४
 तस्य सम्यक्वृत्तस्य पूर्वजं भ्रातरं गति । कामार्तस्य नरेन्द्रस्य
 पत्न्यस्तद्रुचे वचः ॥२५॥ ततो मधुपुरं राजा हर्षश्वः स जगाम
 च । भार्यया सह कामिन्या कामी पुरुषपुङ्गवः ॥ २६ ॥ मधुना
 दानवेन्द्रेण स साम्ना समुदाहनः । स्वागतं वत्स हर्षश्व गीतो-
 ऽस्मि तव दर्शनात् ॥ २७ ॥ यदेतन्मम राज्यं वै सर्वं मधुवनं
 विना । ददामि तव राजेन्द्र वासश्च मतिपृह्यताम् ॥ २८ ॥ वने
 ऽस्मिन्लक्षणश्रायं सहायस्ते भविष्यति । अद्रिनिग्रहे चैव कर्ण-
 धारत्वमेष्यति ॥ २९ ॥ पालयैनं शुभं राष्ट्रं समुद्रानूपभूपितम् ।
 गोसमृद्धं श्रिया जुष्टमाभीरप्रायमानुपम् ॥ ३० ॥ अत्र ते वस-
 तस्तान दुर्गं गिरिपुरं महत् । भविता पार्थिवावासः सुराष्ट्रं

धिकार है, हे वीर ! अब हम दोनों अपने पिताजीके भवनके पास चलें ॥ २४ ॥ पूर्वज भाईसे सम्यक् (सह) वर्ताव करने वाले अर्थात् श्वशुरका आश्रय लेनेसे भाईका वध न करना पड़ेगा यह चाहनेवाले कामातुर नरेन्द्रको पत्नीका वचन ठीक लगा ॥ २५ ॥ तब वह पुरुषपुङ्गव कामी राजा हर्षश्व अपनी स्त्रीके साथ मधुवनमें चला गया ॥२६॥ दानवेन्द्र मधुने उससे सामपूर्वक कहा हे वत्स हर्षश्व ! तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे दर्शनसे प्रसन्न होगया हूँ ॥२७॥ मैं मधुवनको छोड़कर अपना बाकी सब राज्य तुम्हारे अर्पण करता हूँ, हे राजेन्द्र ! आप मेरे भवनको भी ले लीजिये ॥ २८ ॥ इस वनमें लक्षण आपका सहायक रहेगा और यह शत्रुओंका निग्रह करते समय तुम्हारा कर्णधार होगा ॥२९॥ तुम डम समुद्रानूपसे विभूषित गोंधोंकी समृद्धि वाले और अधिकतर आभीर मनुष्योंकी वस्ती वाले शुभ राष्ट्रका पालन करो ३० हे तात ! इस बड़े भारी गिरिदुर्गमें रहने पर यह बड़ाभारी सुराष्ट्र देश राजाओंका निवासस्थान

विषयो महान् ॥ ३१ ॥ अन्नू विषयश्चैव समुद्रन्ते निरामयः ।
 आनर्त नाम ते राष्ट्रं भविष्यात्पयतं महत् ॥ ३२ ॥ तद्भविष्यमहं
 मन्ये कालयोगेन पार्थिव । अस्यास्पतां यथाश्लं पार्थिवं वृत्त-
 मुत्तमम् ॥ ३३ ॥ यायातमपि वंशस्ते समेप्यति च यादवम् ।

रूप होजावेगा ॥ ३१ ॥ समुद्रके पास अनूप (जलपाय) प्रदेश
 में तुम्हारा निरामय राज्य होगा और तेरे बड़े चौड़े राष्ट्रका
 नाम आनर्त होगा ॥ ३२ ॥ हे पार्थिव ! यह सब समय आने
 पर होगा, मैं यह भविष्यकी बात कहना हूँ, अब तुम समयानु-
 सार उत्तम पार्थिव चरित्रका पालन करो ३३ तुम्हारा ययाति
 वंश भी यादवत्वको प्राप्त होजायगा और तुम्हारा अनुवंश
 सोमका वंश होजायगा (अर्थात् तेरा वंश ययातिके पुत्र यदुके
 वंशके सम्बन्धीके वंशमें प्रविष्ट हो जायगा अब एक तेरा वंश पीछे
 से सोमवंशी होजायगा अर्थात् सूर्यवंशसे च्युत होजायगा । यहाँ
 शंका होती है कि-ययातिसे यदु, यदुसे क्रोष्टा, क्रोष्टासे देवगीड़, देव-
 गीड़से शूर, शूरसे वसुदेव और वसुदेवसे कृष्ण हुए यह वंश पहिले
 ही कहदिया था, अब फिर सूर्यवंशी हर्यश्वसे यदु यदुसे माधव,
 माधवसे सत्त्वान्, सत्त्वान्से भीम भीमसे अन्धक, अन्धकसे रैवत
 रैवतसे ऋत्त, ऋत्तसे विश्वगर्भ उससे वसु, वसुसे वसुदेव और
 वसुदेवसे श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए, सो बड़े वसुदेवका एकादशत्व
 कैसे होगया, यहाँ यह समाधान नहीं होसकता, कि-यह कल्प-
 भेदसे भेद है, क्योंकि-एक ग्रन्थमें पठित होनेसे यह विरोध
 दुःसमाधेय है । यह बात सत्य है परन्तु उसका समाधान यह
 है, कि-“यायातमपि वंशस्ते” इस वचनसे मतीत होता है, कि-
 एक ही यदु ग्रहसे दूसरे घरमें घुसनेकी समान योगबलसे सूर्य-
 वंशमें आविर्भूत होकर सूर्यवंशसे अपने पत्तमें लेयाया, जैसे
 जन्माजीके मानसपुत्र वसिष्ठ किसी कारण फिर मित्रारुणके यहाँ

अनुवंशं च वंशस्ते सोमस्य भविता क्लि ॥३४॥ एष मे विभं-
वस्नात तमेवं विपयोत्तमम् । दत्त्वा यास्यामि तपसे सागरं लवणा-
लयम् ॥ ३५ ॥ लवणेन समायुक्तस्त्वमिमं विपयोत्तमम् । पाल-
यस्वाखिलं तात स्वस्य वंशस्य वृद्धये ॥ ३६ ॥ वाढमित्येव
हर्यश्वः प्रतिजग्राह तत्पुरम् । स च दैत्यस्तपोत्रासं जगाम वरुणा-
लयम् ॥ ३७ ॥ हर्यश्वश्च महातेजा दिव्ये गिरिवरोत्तमे । निवेश-

भी उत्पन्न हुए और उनका वशिष्ठपुत्र भी दूर नहीं हुआ था, इसी
प्रकार एक ही यदुने लीलावश क्रमसे दो देहोंको धारण कर लिया,
इससे दो यदु उत्पन्न हुए थे अनएव एक यदु ही दोनों वंशोंके
कर्ता है इसीप्रकार शूर और वसुसे उत्पन्न हुए वसुदेव एक ही हैं
कृष्ण तो दोनों वंशोंके अनुगत वसुदेवसे उत्पन्न होनेके कारण
वसुके भी पौत्र हैं और शूरके भी पौत्र हैं वसु और शूरके पितृ-
भेदसे नामभेद होने पर भी स्कन्द सनत्कुमारकी समान व्यक्तयेक्य
ज्ञानना चाहिये, इसलिये पाण्डवोंकी माता पृथाका शूरुत्पन्नत्व
और वसुत्पन्न भी उचिन्त जँचना है इसीप्रकार वंशविरोधमें
दूसरी जगह भी समझना चाहिये, यादवोंके देवता होनेसे एक
का भी दोनोंमे एक साथ सम्मन्व होना सम्भव है । यहाँ पर
यह संग्रह है, कि—“नामरूपे असत्यज्य यदुर्हर्यश्वतोऽभवत्
स्वरूपेण वसुर्नाम शरोऽभूद्विश्वगर्भतः । यदुयुनघादौजातो वंशी-
चद्रुविधा तर्ता । द्विनाम्नि वसुदेवाय पितृतीर्थे च संगतो) ॥३४॥
हे तान ! ये मेरा वंशव श्व तुम्हारा उत्तम देश होगया मैं इसे
तुम्हें प्रदानकर लवणालय समुद्रको तप करनेके लिये जाता हूँ ३५
हे तान ! तुम अपने वंशकी वृद्धिके लिये लवणके साथ इस
कारे उत्तम देशका पालन करिये ३६ तब हर्यश्वने बहुत अच्छा
कर कर उस पुरको स्वीकार करलिया और वह दैन्य भी तपके
आशमन्थन बगणान्त (समुद्र) को चला गया ३७ तब

यामास पुरं वामार्धमपरोपमः ॥३८॥ आनर्त नाम तद्राष्ट्रं सुराष्ट्रं
 गोभनायुतम् । अचिरं कालेन समृद्धं मत्पययत् ॥ ३९ ॥
 अनूपविषये चैव वेलावनविभूषितम् । विचित्रं क्षेत्रास्यादयं
 प्राकारग्रामसङ्कुचम् ॥ ४० ॥ शशास नृपतिः स्फीतं तद्राष्ट्रं राष्ट्रं
 वर्धनः । राजधर्मेण यशसा प्रजानां नन्दिवर्धनः ॥ ४१ ॥ तस्य
 सम्यक्प्रचारेण हर्षश्वस्य महात्मनः । व्यवर्तत तदन्तोभ्यं राष्ट्रं
 राष्ट्रगुणैर्युतम् ४२ स हि राजा स्थितो राज्ये राजनृत्तेन शोभितः ।
 प्राप्तः कुलोचितं लक्ष्मीं वृत्तेन च नयेन च ॥ ४३ ॥ तस्यैव च
 सुवृत्तस्य पुत्रकामस्य धीमतः । मधुमती सुतो जज्ञे यदुर्नाम मधु-
 यज्ञः ॥ ४४ ॥

देवताकी समान महातेजस्वी हर्षश्वने उस दिव्य उत्तम पर्वत
 पर अपना पुर बसाया ॥ ३८ ॥ उस सुन्दर राष्ट्रका नाम आनर्त
 हुआ और वह राष्ट्र थोड़े ही दिनोंमें लाखों गोधनसे समृद्ध हो
 गया ॥ ३९ ॥ वह अनूप (जलपाय) देशमें बसा हुआ राज्य
 तद्र और ननसे विभूषित था वह विचित्र देश खेत और धान्योंसे
 विभूषित होगया और प्राकार तथा ग्रामोंसे व्याप्त होगया ४०
 उस समय वह प्रजाओंके आनन्दको बढ़ाने वाला राजा यश-
 पूर्वक राज धर्मसे विस्तृत राज्यका शासन करने लगा ४१ महात्मा
 राजा हर्षश्वके भली प्रकार प्रचार करनेसे वह राष्ट्रके गुणोंसे
 भरपूर हुआ अन्तोभ्य राष्ट्र बढने लगा ॥ ४२ ॥ उस राजाने
 राजाओंके आचरण और नीतिसे शोभायमान हो कुलोचित
 लक्ष्मीको पालिया ॥ ४३ ॥ उस पुत्रागिलापी सच्चरित्र राजा
 के यहाँ मधुमती स्त्रीसे यदु नामक महायशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ
 (यहाँ "यायातमपि वंशस्ते" को स्पष्ट करते हैं कि-उसकी पुत्र-
 वामुकताको देख कर यह यायात यदु स्वयं ही हर्षश्वका पुत्र
 बन कर योगरत्नके कारण पराये चित्तके भावको जानकर उत्पन्न

अनुवंशं च वंशस्ते सोमस्य भविता किल ॥३४॥ एष मे विभ-
वस्तात तमेवं विपयोत्तमम् । दत्त्वा यास्यामि तपसे सागरं लवणा-
लयम् ॥ ३५ ॥ लवणेन समायुक्तस्त्वमिमं विपयोत्तमम् । पाल-
यस्वाखिलं तात स्वस्य वंशस्य वृद्धये ॥ ३६ ॥ षाढमित्येव
हर्यश्वः प्रतिनग्राह तत्पुरम् । स च दैत्यस्तपोवासं जगाम वरुणा-
लयम् ॥३७॥ हर्यश्वश्च महातेजा दिव्ये गिरिवरोत्तमे । निवेश-

भी उत्पन्न हुए और उनका वशिष्ठपुत्र भी दूर नहीं हुआ था, इसी
प्रकार एक ही यदुने लीलावश क्रमसे दो देहोंको धारण कर लिया,
मे दो यदु उत्पन्न हुए थे, अनुपन्न एक यदु ही दोनों वंशोंके
सत्तार

होगया था) ॥३४॥ वह नगाड़ेकी समान शब्द करने वाला
महाशस्त्री गदु बहने लगा, उसमें गजाओंकेसे सब चिन्ह वर्तमान
थे और शत्रु उसको कठिनतासे जीव संकते थे ३५ यदुनाग
वाला पुत्र अपने पूर्वज महानशस्त्री पुरुकी समान राजलक्षणों
से पूजित था ३६ महान्मा हर्यश्वके पृथिवीका स्वामी बली और
परमशोभासंपन्न वह एक ही परमशोभन पुत्र था ३७ पृथ्वीमें
अद्वितीय राजा हर्यश्व दत्ता सहस्र वर्ष तक अखण्ड राज्य करके
स्वर्गको चला गया ३८ तब अर्दीन मन वाले यदुका प्रजाओंने
अभिषेक कर दिया इस प्रकार वह श्रीमान् सूर्यकी समान क्रमशः
(अपने पिताके बाद दूसरे दिनके सूर्यकी समान राजाके रूपमें)
वदव होगया ३९ और भय तथा चोरीको शान्त करके इस
पृथ्वीका शासन करने लगा, ऐसे गदु इन्द्रकी समान थे, उनके
कारण ही दग यादव रुझाये हैं ५० चन्द्रमा जैसे नक्षत्रोंके साथ
रह कर शोभा पाता है इस प्रकार एक समय उसने अपनी अति-
गुणवती स्त्रियोंको साभर्म तो समुद्रमें जलकीड़ा की ॥ ५१ ॥
वद नीर्यवान् राजा समुद्रके जलमें तैर रहा था, कि-उसको

यायास पुत्रं वीमार्यामगोपयः ॥१८॥ आनर्तं नाम तद्राष्ट्रं सुराष्ट्रं
 गोपनायुय । अचिरं कालेन समुद्रं गत्यपयत ॥ ३६ ॥
 अनूपनिपये च व वेलावनविभूषितम् । विचित्रं क्षेत्रसस्याढयं
 प्राकारग्रामसङ्कुचम् ॥ ४० ॥ शशास नृपतिः स्फीत तद्राष्ट्रं राष्ट्रं
 वर्धनः । राजधर्मण यशसा मजानां नन्दिवर्धनः ॥ ४१ ॥ तस्य
 सम्यक्प्रचारेण हर्यश्वस्य महात्मनः । व्यवर्धत तदज्ञोभ्यं राष्ट्रं
 राष्ट्रगुरोर्युतम् ४२स हि राजा स्थितो राज्ये राजनृत्तेन शोभितः ।
 प्राप्तः कुलोचितार्त्तलक्ष्मीं वृत्तेन च नयेन च ॥ ४३ ॥ तस्यैव च
 सुवृत्तस्य पुत्रकामस्य धीमतः । मधुमत्यां सुतो जज्ञे यदुर्नाम मन्
 यशाः ॥ ४४ ॥ स्तोत्रार्त्तं पञ्चमोत्तरच्छदम् ॥ ५८ ॥ तमासीनं त्रपं तत्र
 परमे पन्नगासने । द्विजिह्वपतिरव्यग्रा धूम्रवर्णोऽस्यमापत ॥ ५९ ॥
 धुगैले चर्णवाला सर्पराज अकस्मात् खंचने लगा ॥ ५२ ॥
 वह उसकी योगपूर्वक खंच कर उड़े भारी सर्पपुरमें ले गया, तहाँ के
 द्वार स्तम्भ और घर गणियोंके बने हुए थे और मोतियोंकी
 झालरें तहाँ शोभा दे रही थी ॥ ५३ ॥ और तहाँ सफेद शंखोंके
 ढेर पड़े हुए थे और वह रत्नराशियोंसे परिभूषित होरहे थे और
 वह फटा पुष्प और अङ्कुरोंसे भरे पुष्पोंसे शोभा पा रहा था ५४
 और समुद्रमें रहा बाला नागेशियोंसे घिर रहा था और स्वर्ण
 वर्ण चन्द्रकी समान दान्तिवान् स्वस्तिकसे पास रहा था ५५
 उस राजेन्द्रने जलमें बसे हुए पन्नगेन्द्रपुरको पृथीम निर्मित
 (नगर) की समाप्त देखा ॥ ५६ ॥ उस सर्पेनधुआसे घिरे हुए
 मेरुकी समान आकार वाले उत्तम स्वच्छ पुरम राजा यदुने
 प्रवेश किया ॥ ५७ ॥ उसके लिये मखिया जलज श्रेष्ठ आसन
 बिछाया गया उसमें कमल बने हुए थे और उसके विज्ञान पर पन्न
 विहारे हुए थे ॥ ५८ ॥ उस श्रेष्ठ पन्नगासन पर उठ हुए राजासे
 अन्यत्र सर्पपति धूम्रवर्णो रहा, कि ॥ ५९ ॥ आपने गिता

पिता ते स्वर्गतिं प्राप्तः कृत्वा वंशगिमं महत् । भवन्तं तेजसा
 युक्तमुत्पाद्य वसुधाधिपम् ॥ ६० ॥ यादवानामयं वंशस्त्वन्नाम्ना
 यदुपुद्भव । पित्रा ते मंगलार्थाय स्थापितः पार्थिवाकरः ॥ ६१ ॥
 वंशे चास्मिन्नाव विभो देवानां तनयान्ययाः । ऋषीणामुरगाणां
 च उत्पन्स्यंते नृयोनिजाः ॥ ६२ ॥ तन्ममेमाः सुताः पंच कुमार्थो
 वृत्तसम्पताः । उत्पन्ना यौवनाश्वस्य भगिन्यां नृपसत्तम ॥ ६३ ॥
 प्रतीच्छेमाः स्वधर्मेण प्राजापत्येन कर्मणा । वरं च ते प्रदास्यामि
 वरार्हस्त्वं गतो मम ॥ ६४ ॥ भैमाश्च कुकुराश्चैव भोजाश्चाधिक-
 यादवाः । दशार्हा वृष्णयश्चेति ख्यातिं यास्यन्ति सप्त ते ॥ ६५ ॥
 स तस्मै धूम्रवर्णो वै कन्याः कन्याव्रते स्थिताः । जलपूर्णेन योगेन
 ददाविन्द्रसमाय वै ॥ ६६ ॥ वरं चास्मै ददौ प्रीतः स वै पन्नग-

आपसे तेजोयुक्त नृपतिको उत्पन्न करके अपने वंशको बड़ा
 बना कर स्वर्गको चले गए है ॥ ६० ॥ हे यदुपुद्भव ! यह यादवोंका
 वंश तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध होगा, इसको मङ्गल करनेके लिये
 तुम्हारे पिताने स्थापित किया है यह राजाओंकी खानेरूप
 होगा ॥ ६१ ॥ हे विभो ! तुम्हारे वंशमें देवताओंके ऋषियोंके
 और सर्पोंके अंश मनुष्ययोनिधारी पुन बन कर उत्पन्न होंगे
 ये मेरी पाँच शीलसम्पन्न कुमारियें हैं, हे नृपसत्तम ! यह
 (दूमेरे) युवनाश्वकी भगिनीमें उत्पन्न हुई हैं ॥ ६३ ॥ इनको
 तुम विवाहविधिसे अपने धर्मानुसार ग्रहण करो, मैं तुम्हें वर
 देनेका पात्र समझता हूँ अतः तुम्हें वर देना हूँ, कि-॥ ६४ ॥
 तुम्हारे वंशमें भैम कुकुर भोज अन्धक यादव और दशार्ह
 प्रसिद्ध होंगे ॥ ६५ ॥ तब उस धूम्रवर्णने अपनी कन्याव्रतमें
 स्थित कन्याओंको दापमें जलका संकल्प लेकर इन्द्रकी समान
 रागाके अर्पण करदिया ॥ ६६ ॥ तब उस पन्नगजवने अदीन
 की समान सब कन्याओंको सुनते हुए प्रसन्न होकर यह वर

पुत्रवः । शान्त्यन कन्यकाः सर्वा यथाक्रममदीनवत् ॥ ६७ ॥
 एता सुते सुताः पंच सुतासु मम मानद । उत्पत्स्यन्ते पितृस्तेजो
 मातुश्चैव समाश्रिताः ॥ ६८ ॥ अस्मत्सगयवद्दारुच सलिलाभ्य-
 तरेचराः । तव वंशे भविष्यन्ति पार्थिवाः कागरूपिणः ॥ ६९ ॥
 स वरं कन्यकाश्चैव लब्ध्वा यदुवरस्तदा । उदतिष्ठत वंगेन सलि-
 लाचन्द्रमा इव ॥ ७० ॥ स पंचकन्यागध्यस्थो ददृशे तत्र पार्थिवः ।
 पंचतोरणसंयुक्तो नक्षत्रेणैव चन्द्रमाः ॥ ७१ ॥ स तदन्तःपुरं
 सर्वं ददर्श नृपसत्तमः । वैवाहिकेन वेपेण दिव्यसूगजुलेपनः ७२
 समाश्रास्य च ताः सर्वाः स पत्नीः पावकोपमाः । जगाम स्वपुरं
 राजा भीत्या परमया युतः ॥ ७३ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि विरुद्र-

चाक्यं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

वैशम्पायन उवाच । स तासु नागकन्यासु कालेन महता नृपः ।

दिपा कि-६७ हे मानद । मेरी इन पाँच कन्याओंमें पिता और
 माताके तेजसे संयुक्त पाँच पुत्र उत्पन्न होवेंगे ॥ ६८ ॥ तुम्हारे
 वंशके राजे हमारे वरदानके प्रभावसे जलके भीतर विचरण
 कर सकने वाले और इन्द्रानुसार रूप धारण करने वाले
 होवेंगे ॥ ६९ ॥ वर और कन्याओंके प्राप्त करनेके अनन्तर
 वह यदुवर जलमेंसे चन्द्रमाकी समान निकला ॥ ७० ॥ उस
 समय पाँच कन्याओंके साथमें खड़ा हुआ वह राजा पाँच नक्षत्रों
 से युक्त चन्द्रमाकी समान दीख रहा था ॥ ७१ ॥ उस समय
 दिव्य चन्दन मालाधारी उस नृपसत्तमने वैवाहिक वेपसे अपने
 सारे अन्तःपुरको देखा ॥ ७२ ॥ तदनन्तर वह अपनी अग्निकी
 समान सकल पत्नियोंको ढाढस देकर परम प्रसन्न होता हुआ
 अपनी पुरीमें चला गया ॥ ७३ ॥ सैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ३७
 वैशम्पायनजीने कहा, कि-बहुत समयमें उस राजाके उन

जनयामास विक्रान्तान् पंच पुत्रान् कुलोद्भवान् ॥ १ ॥ मुचुकुन्दं
 महाबाहुं पद्मवर्णं तथैव च । माधवं सारसं चैव हरितं चैव
 पार्थिवम् ॥ २ ॥ एतान् पञ्चसुतान् राजा पञ्चभूतोपमान् भुवि ।
 ईक्षमाणां नृपः प्रीतिं जगामातुलविक्रमः ॥ ३ ॥ ते प्राप्तवयसः
 सर्वे स्थिताः पञ्च यथाऽद्रयः । तेजिता बलदर्पाभ्यामूचुः पितर-
 मग्रतः ॥ ४ ॥ तात युक्ताः स्म वयसां बले महति संस्थिताः ।
 क्षिप्रमाज्ञसुगिन्द्रापः किं कुर्मस्तव शासनात् ॥ ५ ॥ स तान् नृपनि-
 शार्दूलः शार्दूलानिव वेगिनान् । प्रीत्या परगया ग्राह सुतान्
 वीर्यकुतूहलात् ॥ ६ ॥ विन्ध्यर्क्षवन्नानभितो द्वे पुर्योर् पर्वनाश्रये ।
 निवेशयतु यत्नेन मुचुकुन्दः सुतां मम ॥ ७ ॥ सहस्रस्योचोपरिष्ठात्तुं
 दक्षिणां दिशमाश्रितः । पद्मवर्णोपि मे पुत्रो निवेशयतु मा
 चिरम् ॥ ८ ॥ तत्रैव परतः कान्ते देशे चम्पकभूषिते । सागसो
 नागकन्याश्रामे कुलक्षो उठानेवाले पाँच पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १ ॥
 अतुल विक्रमी यदु पञ्चभूतोंकी समान अपने मुचुकुन्द महाभुज
 पद्मवर्ण माधव सारस और राजा हरित इन पाँच पुत्रोंको देख
 कर प्रसन्न होने लगा ॥ २ ॥ ३ ॥ वे पाँचों पुत्र अवस्थामें आने
 पर बल और दर्पसे उरताहित होकर पाँच पर्वतोंकी समान
 पिताके सामने खड़े हो उनसे कहने लगे ॥ ४ ॥ हे तात ! अर्ब
 हमारी अवस्था कार्य करने योग्य होगई है और हममें (आपकी
 कृपासे) बड़ा भारी बल आगया है, अब हम शीघ्र ही आपकी
 आज्ञासे किसी कामको करना चाहते हैं वताइये हम आपकी
 आज्ञासे क्या कार्य करें उस समय इन शार्दूलकी समान वेग-
 बान् अपने पुत्रोंके वीर्यको जाननेके कुतूहलसे उस नृपतिशार्दूल
 ने परम प्रीतिके साथ कहा कि-॥ ६ ॥ मेरा पुत्र मुचुकुन्द विन्ध्या-
 चलके उत्तरकी ओर और शूद्रबान् पर्वतके दक्षिणकी ओर
 इस प्रकार पर्वतके आश्रयमें दो पुरियें बसावे और मेरा पुत्र

मे पुरं रम्यं निवेशयतु पुत्रकः ॥६॥ हरितोज्य महाबाहुः सागरे
 हरितोदके । द्वीपं पन्नगराजस्य सुतो मे पालयिष्यति ॥ १० ॥
 माथयो मे महाबाहुज्येष्ठपुत्रश्च धर्मवित् । यौवराज्येन संयुक्तः
 स्वपुरं पालयिष्यति ॥११॥ सर्वं नृपश्रिणं प्राप्ता अभिषिक्ताः स
 चागरोः । पित्राजुशिष्टार्चत्वारो लोकापालोपमा नृपाः ॥ १२ ॥
 एवं एवं निवेशनं सर्वं भेजिरे नृपसत्तमाः । पुरस्थानानि-रम्याणि
 मृगयन्तो यथाक्रमम् ॥१३॥ मुचुकुन्दश्च राजपिबिंध्यमध्यम-
 रोचयत् । स्वस्थानं नर्मदातीरे दारुणोपलसंकटे ॥ १४ ॥ स च तं
 शोधयामास विविक्तं च चकार ह । सेतुं चैव समं चक्रे परि-
 ख्लाश्रामितोदकाः ॥१५॥ स्थापयामास भागेषु देवतासत्तनान्यपि ।
 पञ्चैवर्षा भी सखसे ऊपर दक्षिण दिशामें शीघ्र ही नगर बसावे
 उससे आगे (सखसे पश्चिम दिशामें) मेरा पुत्र चम्पकोंसे
 विभूषित मनोहर सारमागमें भी नगर बसावे ॥६॥ और
 यह मेरा महाभुज पुत्र हरि हरे जल वाले समुद्रमें पन्नगराज
 (धूमनर्षी) के द्वीपको पालन करेगा ॥ १० ॥ और मेरा ज्येष्ठ-
 पुत्र महाभुज माथव जो धर्मज्ञ है उसका युवराज पद पर अभि-
 पेक होगा और वह रैनन पर्यतके सपीपमें वर्तमान अपने नगरका
 पालन करेगा ॥११॥ तब तो पिताकी आज्ञापाने पर वे लोक-
 पालोंकी समान चारों पुत्र नृपलिक्ष्मीसे सम्पन्न होगए उनका
 अभिषेक किया गया और उनपर चमर डुलाया जाने लगा १२
 तब वे सब नृपसत्तम अपने-अपने घरको चले गए और क्रमानुसार
 अपने रमणीय नगरोंके लिये उद्योग करते रहे ॥१३॥ राजपि
 मुचुकुन्दने विंध्याचलके बीचका स्थान पसन्द किया, वह स्थान
 नर्मदा नदीके तट पर था और दारुण पत्थरोंके कारण संकट-
 मय था ॥ १४ ॥ मुचुकुन्दने उसको साफ करवाया और स्वच्छ
 कर दिया उसने तहाँ पुल बनवाया और अपार जलसे भरी

रथ्यात्रीथीनृणां मार्गाश्चत्वरारि वनानि च ॥ १६ ॥ स तां पुरीं
धनवतीं पुरुहूतपुरीप्रभाम् । नातिदीर्घेण कालेन चकार नृप-
रात्तमः ॥ १७ ॥ नाम चास्याः शुभं चक्रे निर्मितं स्वेन तेजसा ।
तस्याः पुर्यां नृपश्रेष्ठो देवश्रेष्ठपराक्रमः ॥ १८ ॥ महाशमसंघातवती
ऋत्तवन्तमुपाश्रिता । माहिष्मती नाम पुरी प्रकाशमुपगोस्पति १६
उभयोर्विन्ध्ययोः पादे नगयोस्तां महापुरीम् । मध्ये निवेशयामास
श्रिया परमया युताम् ॥ २० ॥ पुरिकां नाम धर्मात्मा-पुरी देव-
पुरीप्रभाम् । उद्यानशतसम्बन्धां समृद्धापणचत्वराम् ॥ २१ ॥
ऋत्तवन्तं सपभितस्तीरे ज्ञाननिरामये । निर्मिता सा-पुरी राज्ञा
पुरिका नाम नागतः ॥ २२ ॥ स ते द्वे विपुले पुर्यां देवभोग्योपमे

खाई खुदवाई ॥ १५ ॥ और स्थान स्थान पर देवमन्दिर बन-
वाये और गलीकूँचे मनुष्योंके मार्ग चौक बनवाये और बाग
बगीचे लगवाये ॥ १६ ॥ इस प्रकार उस नृपश्रेष्ठने थोड़े ही
समयमें उस पुरीके धनसम्पन्न और इन्द्रकी नगरीकी समान
प्रभा वाली बना दिया ॥ १७ ॥ -तदनन्तर, देवताओंमें-श्रेष्ठ
(इन्द्र) की समान पराक्रमी उस नृपश्रेष्ठने अपने तेजसे बनाई
हुई उस पुरीका शुभ नाम रक्खा १८ ॥ ऋत्तवान् पर्वतके पास
यह पुरी महाशमसंघातवती थी अर्थात् इसमें बड़े २ पत्थरोंके
ढेर थे अत एव यह पुरी माहिष्मती नामसे प्रसिद्ध होगी १६ तद-
नन्तर उस धर्मात्माने विन्ध्याचल और ऋत्तवान् पर्वतकी तलैटीमें
परमशोभामे सम्पन्न देवपुरीकी समान एक बड़ी भारी पुरिका
नाम वाली पुरी बसाई, उसमें सैकड़ों बगीचे लग रहे थे और
उमके (बाजारके) चौक और दूकाने भमृद्ध थी ॥ २० ॥ २१ ॥
इस प्रकार ऋत्तवान् पर्वतके समीपके निरामय तट पर वह पुरी
राजाने पुरिका नामसे बसाई २२ तब वह राजधर्ममें स्थित
धर्मात्मा राजा उन देवताओंके भोगने योग्य दोनों बड़ी भारी

शुभे पालयामास धर्मात्मा राजा धर्मं व्यवस्थितः ॥ २३ ॥ पञ्च-
वर्णोऽपि राजर्षिः सहाय्ये पुरोत्तमम् । चकार नद्या वेणायास्तीरे
तरुलताकुले ॥ २४ ॥ विषयस्यार्पता ज्ञात्वा सम्पूर्णं राष्ट्रमेव च ।
निवेशयामास नृपः सवप्रमायमुत्तमम् ॥ २५ ॥ पद्मावतं जनपदं
करवीरं च तत्पुरम् । निर्मितं पञ्चवर्णेन प्राजापत्येन कर्मणा २६
सारसेनापि विहितं रम्यं क्रौञ्चपुरं महत्तमं चम्पकाशोकवकुलं
विपुलं ताम्बूत्तिरुम् ॥ २७ ॥ वनवासीति विख्यातः स्फीतो
जनपदो महान् । पुरस्य तस्य तु श्रीमान् दुर्मैः सार्वर्तुर्दृष्टः २८
हरितोऽपि समुद्रस्य द्वीपं समभिपालयत् । रत्नसञ्चयसम्पूर्णं
नारीजनमनोहरम् ॥ २९ ॥ तस्य दाशा जले मग्ना महगुरा नाम
विश्रुताः । ये हरन्ति सदा शंखान् समुद्रोदरचारिणः ॥ ३० ॥
तस्यापरे दाशननाः प्रवालाञ्जलसंभवान् । सञ्चिन्वन्ति सदा

शुभ पुरियोका पालन करने लगा २३ राजर्षि पञ्चवर्णने भी
सहाय्यके पीछे वेणा नदीके वृत्त और लताओंसे घिरे हुए
तट पर श्रेष्ठ नगर बसाया २४ उस राजाने पृथ्वीको थोड़ी
देखे कर अपने सारे राष्ट्रको श्रेष्ठ महलके आकारमें बसा दिया
पञ्चवर्णने प्राजापत्य वमसे अर्थात् वृत्तसे सम्बन्ध रखने वाले
शिल्प कर्मसे पद्मावत नामक देश और करवीर नामक नगर
बसाया ॥ २६ ॥ सारसने भी रमणीय क्रौञ्चपुर बसाया, उसमें
चम्पक अशोक और वकुलके वृत्त-लगवाये और ताम्बूकी
मृत्तिका (पृथ्वी पर पत्तरे) जड़वाई ॥ २७ ॥ उस नगरके
सामने सब ऋतुओंके वृत्तों वाला, वनवासी नामसे प्रसिद्ध
बड़ा भारी जनपद था ॥ २८ ॥ हरितने भी रत्नोंकी राशियों
से भरे हुए और स्त्रियोंसे रमणीय समुद्रद्वीपका पालन किया २९
उसके शीवर महगुर नामसे प्रसिद्ध थे, वे समुद्रके भीतर फिरने
वाले जलमें गोता लगाकर सदा शंख निकाला करते थे ॥ ३० ॥

युक्ता जातरूपं च मौक्तिकम् ॥ ३१ ॥ जलजानि च रत्नानि
 निपादास्तस्य मानवः । प्रचिन्तः तोर्णवे युक्ता नौभिः संया ।
 गामिनः ॥ ३२ ॥ मत्स्यमासेन ते सर्वे वर्तन्ते स्म रादा नराः ।
 गृह्यन्तः सर्वरत्नानि रत्नद्वीपनिवासिनः ॥ ३३ ॥ तैः संयानगतै
 र्द्रव्यैर्वणिजो दूरगामिनः । हरितं तर्पयन्त्येक गर्थव धनद त ॥ ३४ ॥
 एवमिच्छन्नुवंशात्तु यदुवंशो विनिःसृतः । चतुर्धा यदुपुत्रैस्तु
 चतुर्भिर्मिथ्यो पुनः ॥ ३५ ॥ स यदुर्गाधरो राज्यं विसृज्य यदु
 पुद्गवे । त्रिविष्टप गनो राजा देह त्यक्त्वा महीतले ॥ ३६ ॥
 वभूव माधवसुतः सत्त्वतो नाम वीर्यवान् । सत्ववृत्तिर्गुणोपेतो
 राजा राजगुणे स्थितः ॥ ३७ ॥ सत्त्वस्य सुतो राजा भीमो
 नाम महानभूत् । येन भैमाः सुसमृत्ताः सत्वतात् सात्वताः

उसके दूसरे धीवर मन्वालाञ्जन (मूँगे और मोतियों) से
 उत्पन्न होनेवाले पटार्थोंको और चोदीकी समान उज्ज्वल
 मोतियोंको लाते थे ॥ ३१ ॥ उसके निपाद मनुष्य समुद्रमें
 वहीर नौकाओंको लगाकर उनमेंसे छोटीर नौकाओंमेंसे उतर
 कर जलमें उत्पन्न होनेवाले रत्नोंको निकालकर लाते थे ३२
 वे सब रत्नद्वीप निवासी मनुष्य सब प्रकारके रत्नोंको निकाल-
 लते रहते थे और मञ्जलीके गाँससे आजीविका चलाते थे ३३
 वे दूरगामी वणिक छोटीर नौकाओंमें दूर जाकर कुवेरकी
 समान एक हरितमो ही वृत्त करते रहते थे ॥ ३४ ॥ इसप्रकार
 इच्छाकृके वंशसे यदुवंश निकला और वह यदुवंश यदुके चार
 पुत्रोंसे फिर चार भागमें विभक्त होगया था ॥ ३५ ॥ राजा
 यदु यदुपुद्गव माधवको राज्य अर्पण कर पृथ्वीमें अपने शरीर
 को त्याग स्वर्गको चला गया था ३६ माधवके सत्त्वत नामक
 वीर्यवान् पुत्र उत्पन्न हुआ, उस गुणसम्पन्न राजाका वर्गवि
 भास्त्रिक था और वह राजगुणमें स्थित था ॥ ३७ ॥ सत्त्व

स्मृताः ॥ ३८ ॥ राज्ये स्थिते नृपे तस्मिन्नामे राज्यं प्रशासति ।
 शत्रुघ्नो लवणं हत्वा विच्छेदं स मधोर्धनम् ॥ ३९ ॥ तस्मिन्
 मधुवने स्थाने पुरीं च मधुरामिमाम् । निवेशयामास विशुः सुमित्रा-
 नन्दिशर्धनः ॥ ४० ॥ पश्ये चैव रामस्य भरतस्य तथैव च ।
 सुमित्रामुत्तयोश्चैव स्थानं प्राप्तं च वैष्णवम् ॥ ४१ ॥ भीमेनेयं
 पुरी जैनं राज्यसम्बन्धकारणात् । स्ववशं स्थापिता पूर्वः स्वयं-
 मध्यासिता तथा ॥ ४२ ॥ ततः कुशे स्थिते राज्ये लवेण पुत्र-
 राजेनि । अन्धको नाम भीमस्य सुतो राज्यमकारयत् ॥ ४३ ॥
 अन्धकस्य सुतो जज्ञे रैवतो नाम पार्थिवः । अज्ञोपि रैवता-
 उज्ज्वे रस्ये पर्वतमूर्धनि ॥ ४४ ॥ ततो रैवतं उत्पन्ना पर्वतः

पुत्र भीम नामक बड़ाभारी राजा हुआ उसके कारण उसके
 वंशज भीम कहलाते हैं और सत्त्वानक कारणे सात्वत कहलाते
 हैं ३८ जब भीम राजा राज्यपर स्थित था उस समय रामचन्द्र
 जीके राज्यशासन चलाते समय शत्रुघ्नने लवणको गारकर
 मधुके वनको काट डाला था ॥ ३९ ॥ फिर सुमित्राके आगम
 को बढ़ानेवाले विशु लक्ष्मणने उस मधुवनके स्थानमें मधुरा
 नामवाली यह पुरी बसाई थी ४० रामचन्द्र भरत और दोनों
 सुमित्रानन्दनोंके इस लोकसे प्रयाण करनेपर उस वैष्णवस्थान
 को ही भीमने फिर लेलिया था ४१ भीमने राज्यके सम्बन्धके
 कारण (अर्थात् मधुके पुत्र लवणके मरण होनेपर उसके धेवते
 शास्त्रानुसार उसके राज्यको पांसकते हैं इस शास्त्रीय सम्बन्ध
 से) भीमने उस पुरीको अपने वशमें करलिया और स्वयं
 तहाँ रहने लगा ४२ जिस समय कुश अधीध्यामें राज्य करते
 थे और लवण्युवराज पद पर थे उस समय भीमका पुत्र
 अन्धक (मधुरापुरी पर) राज्य करता था ४३ अन्धकका पुत्र
 रैवत नामक राजा हुआ और रामेणिय पर्वतशिखर पर रैवत

सागरान्तिके । नाम्ना रैवतको नाम भूमौ भूमिधरः स्मृतः ४५
 रैवतस्यात्मजो राजा विश्वगर्भो महायशाः । वभूव पृथिवीपालः
 पृथिव्यां प्रथितः प्रभुः ॥ ४६ ॥ तस्य तिसृषु भार्यासु दिव्यरूपासु
 केशवः । चत्वारो जज्ञिरे पुत्रा लोकपालोपमाः शुभाः ॥ ४७ ॥
 वसुर्वभ्रुः सुपेणश्च सभाश्चैव वीर्षवान् । यदुचीराः प्रख्याता लोक-
 पाला इवापरे ॥ ४८ ॥ तैर्यं यादवो-वंशः पार्थिवैर्वहुली-कृतः ।
 यैः साकं कृष्ण लोकेऽस्मिन् प्रजावन्तः प्रजेश्वराः ॥ ४९ ॥
 वसोस्तु कुन्तिविषये वसुदेवः सुतो विभ्रुः । ततः स जनयामास
 समभे द्वे च दारिके ॥ ५० ॥ कुन्ती च पाण्डुर्महिषी - देवता-
 गिन भूचरीम् । भार्या च दमघोपस्य चेदिराजस्य सुप्रभाम् ५१
 एष ते स्वस्य वंशस्य प्रभवः सस्मकीर्तितः । श्रुतो मया पुरा
 के ऋत उत्पन्न हुआ ४४ उस समय समुद्रके पास रैवत-पर्वत
 उत्पन्न हुआ था, वह पर्वत राजाके नामसे रैवतक कहलाया
 था ४५ रैवतके महा मशम्बी विश्वगर्भ नामक राजा पुत्र हुये
 वह प्रभु पृथ्वीमें प्रसिद्ध राजा होगया था ॥ ४६ ॥ हे केशव !
 उसकी दिव्य रूपवाली तीन स्त्रियें थीं उनमें लोकपालोंकी
 समान चार पुत्र उत्पन्न हुए थे ४७ ये वसु वभ्रु सुपेण और
 वीर्षवान्-सभा नामक चारों यदुचीर दूसरे लोकपालोंकी समान
 प्रसिद्ध थे ४८ उन राजाओंसे यह यादववंश अनेक भागोंमें
 विभक्त होगया है, हे कृष्ण ! उनके (नामोंके) साथ इस लोकमें
 बहुतसे सन्तानवान् राजे रहते हैं ४९ (शूर उपनाम वाले)
 वसुके वसुदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । फिर उसने उसकी
 समान कान्तिवाली दो पुत्रियोंको उत्पन्न किया, वे कुन्तीभोज
 के देशमें रहनी थीं ५०-उनमें पृथ्वीमें फिरनेवाली देवताकी
 समान कुन्ती पाण्डुकी रानी हुई और सुप्रभा चेदिराज दम
 घोपकी पत्नी हुई थी ५१ मैंने तुमसे यह अपने वंशकी उत्पत्ति

कृष्ण कृष्णद्वैपायनान्तिकीत् ॥ ५२ ॥ त्वं, त्विदानीं मनष्टे-
 ऽस्मिन् वंशे वंशभृताम्बर, स्वयम्भूरिव सम्पातो भवायास्मज्ज-
 याय च ॥ ५३ ॥ न तु त्वां गौरमानेण शक्ता, गृहयितुं नयम् ।
 देवगुहोऽपि भवान् सर्वज्ञः सर्वाभावनः, ॥ ५४ ॥ शक्तश्चापि
 जरासन्धं नृपं योधयितुं विभो- । इन्द्रबुद्धिवशगाः सर्वं, वयं
 योधयते, सिन्धुः ॥ ५५ ॥ जरासन्धस्तु बलवान्नृपाणां मूर्ध्नि
 तिष्ठति । अपमेयबलश्च वयं च कृशसाधनोः, ॥ ५६ ॥ न चैय-
 मेकादपि पुरी रोधं सहिष्यति, कृशभक्तैश्च नृणां दुर्गपरि-
 वेष्टिताः ॥ ५७ ॥ असंस्कृतांशुपरिखा द्वार्यन्त्रविवर्जिता, वप्र-
 माकारनिचयो कर्तव्या, बहुनिस्तरा- ॥ ५८ ॥ संस्कर्तव्यायुधा-
 मारा योक्तव्या त्रिष्टिकानुर्यैः । कंसस्य बलभाग्यत्वान्नातिगुप्ता

कही. हे कृष्ण ! मैंने इसको पहिले व्यासजीसे सुना था ५२
 हे नश्वारियोंमें श्रेष्ठ ! आप तो इस नष्ट होते हुए वंशके लिए
 और हमारा कवचाण करनेके लिये स्वयम्भू की समान आ
 गए है ५३ ॥ हग साधारण पुरनासी बनानेके (जरासन्धसे)
 आपको नहीं खिपा सके, इस बातको सर्वज्ञ होनेके कारण
 आप भी जानते है ५४ हे गयो ! आप रानी जरासन्धसे युद्ध
 करनेमें भी, समर्थ हैं; हा, सना आपकी, बुद्धिके प्रशमें चलने
 वाले है और यो व्रतमें स्थिर है, ५५ जरासन्ध बलवान है
 उसके पास असंख्य सेना हैं और हमारे साधन कृश है ५६
 यह दुर्गसे न घिरी हुई पुरी भक्त ईधन जामके रूप होने पर
 एक दिनके याक्रमणको भी ना सह सकेगी ५७ इसकी खाइएँ
 राफ नहीं की गई है, और इसके द्वारों पर यन्त्र भी नहीं हैं,
 इसमें विस्तृत स्थानमें वप्र (सुरद्र) और आहार बनानेकी
 आवश्यकता है ५८ इसमें आयुधागार बनानेकी आवश्यकता
 है और इसमें इतोंके डेर डालनेकी आवश्यकता है, कंस भाग्य

पुरा जनैः ॥ ५६ ॥ संजो निपतिते कंसे राज्येऽस्माकं नवोदये ।
 पुरी प्रत्यग्ररोधेन न रोधं विसहिष्णति ॥ ६० ॥ बलं मम्मर्द
 भग्नं च कृप्यमाण परेण ह । असंशयमिदं राष्ट्र जनैः सह
 विनञ्चयति ॥ ६१ ॥ यादवानां विरोधेन ये जिता राज्यकामुकैः ।
 ते सर्वे द्वैधमिच्छन्ति यत्नमं तद्विधीयताम् ॥ ६२ ॥ चंचनीया भवि-
 प्यामो नृपाणां नृपकारणात् । जरासन्धभयार्तानां द्रवतां राज्य-
 संभ्रमे ॥ ६३ ॥ आर्ता वक्ष्यन्ति नः सर्वे रुध्यमानाः पुरे जनाः ।
 यादवानां विरोधेन विनष्टा स्मेति केशव ॥ ६४ ॥ एतन्मग गतं
 कृष्ण विश्रम्भात् समुपाहृतम् । त्वं तु विज्ञापितः पूव न पुनः
 सम्प्रबोधितः ॥ ६५ ॥ त्वमस्य नेना सैन्यस्य वर्गं त्वच्छासने

को बलवान् था अतएव पहिले मनुष्योंने इसकी खूब रक्षा नहीं
 की थी ५६ कंसके मारे जानेपर हमारा राज्य शीघ्र ही प्रति-
 ष्ठित होगया था अब यह पुरी कर बमूल करनेके लिये खड़े
 हुए राजभटोंसे अवरुद्ध ग्रामकी समान इस हल्लेको सह न
 सकेगी ६० इसकी सेना मर्दन करने पर भग्न होजायगी और
 शत्रुओंके खेंचने पर यह राष्ट्र मनुष्यों सहित नष्ट होजावेगा ६१
 राज्यकामुक पुरुषोंने यादवोंसे विरोध करनेवाले जिन(राजाओं)
 को जीत लिया था, वे सब द्वैध चाहते हैं; अतः जो उचित हो
 सो करिये ६२ हम राजे यदि राजा होनेपर भी राज्यसंभ्रमसे
 जरासन्धसे डरकर भागेंगे तो अपने राजापनको धोखा देंगे ६३
 शत्रुओंके पीडा देने पर मनुष्य, हमसे क्रोधमें भरकर कहेंगे, कि
 हम यादवोंके विरोधके कारण नष्ट हो रहे हैं ६४ हे कृष्ण !
 मेरा यह मत है, विश्वासके साथ मैंने इसको कहदिया, आप
 तो इस बातको पहिलेसे ही जानते होंगे यह बात आपको मैंने
 नहीं नहीं सुभाई है ६५ आप इस सेनाके नेता हैं, और हम भी
 आपसे शासनमें स्थित हैं और यह विरोध भी आपके कारण

स्थिताः । त्वन्मूलश्च विरोधीऽयं रक्षास्मानात्मना, सह ॥ ६६ ॥
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिःशो विष्णुपर्वणि विक्रु-
वाक्यं नाम अष्टविंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

वैशम्पायन उवाच । विक्रुद्रोस्तु वचः श्रुत्वा वसुदेवो महा-
यशाः । परितुष्टेन मनसा वचनं चेदमब्रवीत् ॥ १ ॥ राजा पाण्डु-
गुण्यवक्ता क्व राजा मन्त्रार्थतत्त्ववित् । स तत्त्वं च, हितं, चैव
कृष्णोक्तं किल, धीमता ॥ २ ॥ भाषिता राजधर्माश्च सत्याश्च
जगतां हिताः । एतच्छ्रुत्वा पितृर्वाक्यं विक्रुद्रोश्च महात्मनः । वाक्य-
मुत्तममेकाग्रो वभाषे पुरुषोत्तमः ॥ ३ ॥ भ्रुवता, वः श्रुतं वाक्यं
हेतुतः क्रामतस्तथा । न्यापतः शास्त्रतश्चैव दैर्गं चैवानुपश्यताम्
श्रूयतामुत्तरं वाक्यं श्रुत्वा च परिशृण्वताम् । नयेन व्यवहृतव्यं

होरहा है, अतः आप हमारी और अपनी भी रक्षा करिये ६६
अइतीसवाँ अध्याय समाप्त ३८

वैशम्पायनजीने कहा, कि-विक्रुद्रके वचनको सुनकर महा-
यशस्वी वसुदेवजीने मसन्न मनसे यह बात कही, कि-१ हे
कृष्ण ! राजा पाण्डुगुण्यका वक्ता होता है और मन्त्रणाके प्रयो-
जनके तत्त्वको जानने वाला होता है, इन धर्मात्माने यही हित-
कारिणी तत्त्व बात कही है २ इन्होंने राजधर्म और जगत्के
हितकारी सत्य वचन कहे हैं पुरुषोत्तमने पिताके और महात्मा
विक्रुद्रके कथनको सुनकर एकाग्र हो यह उत्तम बात कही कि ३
आपसे किस निमित्त वैर हुआ है, शत्रुका पराक्रम क्या है और
जिस निमित्त वैर हुआ है उसके परिहारसे अरिष्टकी शान्ति
करनी चाहिये ऐसी युक्ति की और शास्त्रमें लिखा है, कि-
अशक्त पुरुषको भाग जाना चाहिये, यह सब बातें सुन लीं
अतः अब आप भावी कार्यक्रमा विचार करिये ४ अब तुम
(मेरे) उचररूप वाक्यको सुनो और उसको सुनकर प्रदण

पाथिवेन यथाक्रमम् ॥ ५ ॥ सन्नि च विग्रह चैव यानमासन्मेव
च । द्वैधीभानां संश्रयं च पाङ्गुण्यं चिन्तयेत् सदा ॥ ६ ॥ बलिनः
सन्निकृष्टेषु न स्थेयं पण्डितेन वै । अपक्रमेद्विकालज्ञः समर्थो
युद्धमुद्धरेत् ॥ ७ ॥ अहं तावत्सुहार्थेण मुहूर्तेऽस्मिन् प्रकाशिते ।
जीवितार्थं गगिष्यामि शक्तिमानप्यशक्तवत् । ततः सहाचलयुतं
सहार्थेणाहमन्तयम् । आत्मद्वितीयः श्रीमन्तं प्रवेक्ष्ये दक्षिणा-
पथम् ॥ ८ ॥ करवीरपुरं चैव रम्यं क्रौंचपुरं तथा । द्रक्ष्याच-
स्तत्र सहितौ गोमन्तं च नमोत्तमम् ॥ १० ॥ आवयोर्गमनं श्रुत्वा
जितकौशीलस पाथिवः । अपविश्य पुरीं दर्पादनुसारं करि-
ष्यति ॥ ११ ॥ ततः सहवनेष्वेव राजा यास्यति सानुगः ।
आवगोर्ग्रहणे चैव नृपतिः प्रयतिष्यति ॥ १२ ॥ एषा नः श्रेयसी

करी राजाको क्रमशः नीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिये ५
(राजा) सन्धि विग्रह यान आसन द्वैधीभाव और संश्रय
इस पाङ्गुण्यका, सर्वदा विचार करता रहे, ६ पण्डित, पुरुष
बलवान् पुरुषके, सामने खड़ा न रहे, विकालको-जाननेवाला
पुरुष तहाँसे हट जाय और, समर्थ हो तो-युद्ध, करे, ७ मैं तो
शक्तिमान् होने पर भी इस प्रकाशित मुहूर्तमें अशक्त पुरुषकी
समान आर्ग (बलदेव) के साथ अपना जीवन बचानेके लिये
भाग जाऊँगा ८ तदनन्तर मैं शोभासम्पन्न सहाचल पर्वतसे
युक्त अक्षय दक्षिणापथमें आर्यके साथ जाऊँगा ॥ ८ ॥ तहाँ
हम दोनों रमणीय करवीरपुरको और क्रौंचपुरको देखेंगे और
पर्वतश्रेष्ठ गोमन्तको भी देखेंगे ॥ १० ॥ हमारे भागनेके वृत्तान्त
को सुन कर जीतनेसे प्रकाशित होने वाला वह राजा पुरीमें न
घुम कर दर्पसे हमारे पीछे २ दौड़ेगा ११ तब वह राजा अपने
अनुचरोंके साथ सहावनमें घुस जावेगा और वह राजा हम
दोनोंको एकडनेका यत्न करेगा ॥ १२ ॥ यह हमारी यात्रा

योत्रा भविष्यति कुलस्य वै । पौराणामथ पुर्यारथ देशस्य च
 सुखानवा ॥ १३ ॥ न च शत्रोः परिभ्रष्टा राजानो विजिगीषवः ।
 परंराष्ट्रेषु मृष्यन्ति मृथे शत्रोः क्षयं विना ॥ १४ ॥ एवमुक्त्वा
 तु तौ वीरौ कृष्णसंकर्षणाबुधौ । प्रपेदतुरसम्भ्रान्तौ दक्षिणौ
 दक्षिणापथम् ॥ १५ ॥ तौ तु राष्ट्राणि शतशश्रन्तौ कामरुषिणौ ।
 दक्षिणो दिशमास्थाय चेतुर्मार्गिणौ सुखम् ॥ १६ ॥ सहापृष्ठेषु
 रम्येषु गोदंभानाबुधौ तथा । दक्षिणापथगौ वीरावस्थानं संपपे-
 दतुः ॥ १७ ॥ तौ च स्वल्पेन कालेन सहाचलविभूषितम् । कर-
 वीरपुरं मासौ स्ववंशेन विभूषितम् ॥ १८ ॥ तत्र गत्वा वेणोया
 नशास्तीरान्तगम्यश्रितम् । आसेदतुः प्ररोहादृथं न्यग्रोधं तरुपुङ्ख-
 वम् ॥ १९ ॥ अधस्तात्तस्य वृत्तमथ मुनिं दीप्ततपोनिधम् ।

हमारे कुलका कल्याण करने वाली होगी और यह पुरवासी
 देश और नगरको भी सुखदेने वाली होगी ॥ १३ ॥ नीतनेकी
 इच्छावाले राजे शत्रुको पाकर उसको परिभ्रष्ट होने पर अर्थात्
 शत्रुके पञ्जेमें पड़ कर निकल जाने पर, शत्रुके राष्ट्रमें शत्रुका
 क्षय किये बिना चैन नहीं पाते हैं ॥ १४ ॥ वे दोनों सपर्य वीर
 श्रीकृष्ण और संकर्षण इस प्रकार कह कर बिना घबड़ाहटके
 दक्षिणापथमें पहुँच गए ॥ १५ ॥ वे इच्छानुसार रूप धारण
 करने वाले दक्षिण दिशाके सैंकड़ों राष्ट्रोंको देखते हुए मार्गमें
 घूमने लगे ॥ १६ ॥ वे दोनों रमणीय सहापर्वतके शिखरों पर
 क्रीड़ा करते हुए दक्षिणापथमें आ मार्गमें विचरण करने लगे १७
 वे थोड़े ही समयमें सहाचलसे विभूषित और अपने वंशसे विभू-
 षित करवीरपुरमें पहुँच गए ॥ १८ ॥ वे तहाँ पर वेणो नदीके
 तट पर खड़े हुए लता चढ़ानेके धनी तरुपुङ्ख न्यग्रोध वृत्तके
 नीचे पहुँच गए ॥ १९ ॥ उस वृत्तके नीचे उन्होंने एक तपके
 खजाने रूप प्रकाशवान् मुनिको देखा, उनके कन्धे पर फरसा

अंभावसक्तपरशुं जटावल्कलधारिणम् ॥२०॥ गौरमग्निशिखा-
 कारं तेजसा भास्करोपमम् । तत्रान्तकरगत्तोभ्यं वपुष्मन्तगिवा-
 र्णवम् ॥२१॥ न्यूनसंकुचिनाशनं काले हुगहुवाशनम् । विलन्ने
 निपवणाभ्यो गिरायं देवशुरुं यथा ॥२२॥ सवत्सां धेतृकां श्वेतां
 होमपुत्रकामदोदनाम् । क्षीरारणिं कर्षमाणं महेन्द्रगिरिगोचरम् २३
 ददृशत्स्वां हि सदिगावपरिश्रान्तगणयम् । भार्गवं रागपासीनं
 मंदरस्थं यथा रनिम् ॥२४॥ न्यायतस्तौ तु तं दृष्ट्वा पादमूले कृतां-
 जली । वसुदेवपुत्रां वीरौ मभिष्य ॥ निव पावकां ॥२५॥ कृष्ण-
 स्तमपिशादूलमुवाच वदतां वरः । श्लक्ष्णं गधुरया वाचा लोक-
 वृत्तान्तकोविदः ॥ २६ ॥ भगवन् जागदग्नि त्वागवगन्धामि

रवला हुआ था और वह जटा तथा वल्कल धारण कर रहे थे ॥ २० ॥ वह अग्निशिखाकी समान गौरवर्ण थे और तेजमें मूर्धेशी समान दीग रहे थे, वह ज्ञात्रियोंका अन्त करने वाले मूर्तिगान् अज्ञोभ्य समुद्रकी सगान दीग्वतं थे २१ उनका (जेतागि का) आधान सङ्कुचित हो गया था तब भी सगण, २ पर अग्निको तृप्त किया करने थे और वह निपवणके जलमें अभिपिक्त होनेमें आद्य देवगुरु (बृहस्पति) की सगान दीखते थे २२ उनके पास बछड़े वाली भफेद गौ थी, वह होमके लिये दुही जानी थी और इन्द्रासुमार दूध देती थी, वह अपने क्षीरकी अग्निको खींच रहे थे और महेन्द्राचलमें दीखा करते थे २३ उन दोनों भाइयोंने ऐसे अल्पय अपरिश्रान्त भृगुवंशी रामको गन्द्राचल पर स्थित मूर्धकी समान बैठे हुए देखा ॥ २४ ॥ उस समय उनको देख कर कृष्णमें स्थित अग्निभी सगान गज्वलित वीर वसुदेव पुत्रोंने उनके चरणोंमें हाथ जोड़ कर प्रणाम किया २५ लोकन्यवहारमें चतुर और वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णने उन ऋषि-शादूलसे सरल और गधुर वाणीमें कहा, कि- ॥ २६ ॥ हे भगवन् !

भार्गवम् । रामं मुनीनामृषभं क्षत्रियाणां कुलान्तकम् ॥ २७ ॥
 त्वया सायकवेगेन क्षितो भार्गव सागरः । इषुपातेन नगरं कृतं
 शूर्पारकं त्वया ॥ २८ ॥ धनुषश्चशतायागमिषुपंशतोच्छ्रयम् ।
 सहस्रस्य च निकुञ्जेषु स्फीतो जनपदो महान् ॥ २९ ॥ अतिक्रम्यो-
 दधेर्वेलागपरान्तं निवेशितः । त्वया तत्कार्तवीर्यस्य सहस्रभुज-
 काननम् ॥ ३० ॥ द्विन्नं परशुनेकेन स्मरता विधनं पितुः । इषग-
 ध्यापि रुधिरैः क्षत्रियाणां हतद्विषाम् ॥ ३१ ॥ स्निग्धस्त्वत्परशु-
 त्सृष्टै रक्तपंका वसुन्धरा । रेणुक्येय विजाने स्वां क्षितौ क्षितिपरोप-
 णम् ॥ ३२ ॥ परशुपग्रहे युक्तं यथैव हरणे तथा । तंदिच्छोचि-
 स्त्वया विष कचिदर्थमुपश्रुतम् ॥ ३३ ॥ उत्तरं च श्रुत्वा र्थेन प्रत्युक्त-

भृगुवंशी जगदग्निके पुत्र क्षत्रियोंके कुलका अन्त करने वाले
 मुनियोंमें श्रेष्ठ परशुराम है, इस बातको जानता हूँ ॥ २७ ॥
 हे भार्गव ! तुमने बाण मार कर अपने बाणवेगसे समुद्रकी फँके
 कर उस स्थानमें शूर्पारक नामक स्थान बसाया था ॥ २८ ॥ तब
 आपने पचास धनुष चौड़ा और पाँच सौ बाण (नाण दो हाथ)
 लम्बा बड़ा भारी जनपद सदांचलकी कुञ्जोंमें बनाया था २९
 यह तुमने समुद्रके किनारेकी छोड़ कर पश्चिम समुद्रके तट पर
 बनाया था, तुमने अपने पिताके वधका स्मरण करके कार्तवीर्य
 के सहस्र भुजारूपी चनेको एक फरसेसे ही काट डाला था,
 तुम्हारे फाँसेसे मारे हुए शत्रुओंके स्निग्ध रुधिरसे इस पृथ्वीमें
 आज भी रक्तकी कीचड़ दीख रही है, हे रेणुक्येय ! मैं जानता
 हूँ, कि-आप पृथ्वीमें पृथ्वीका पालन करने वाले राजाओं पर
 रुष्ट रहते हैं ॥ ३०-३२ ॥ हाँ जानते हैं, कि-आप फरसेको
 जैसे पकड़ते हैं, वैसे ही उसको फिरा सकते हैं, हे विष ! इस
 लिये हम आपसे एक बातको सुनना चाहते हैं ॥ ३३ ॥
 आप शास्त्रके मयोजनोंको जानने वाले हैं अतः आप उसी

गविशंकया । आनयोर्मथुरा राम यमुनातीरशोभिनी ।
यादृशो स्वो मुनिश्रेष्ठ यदि ते श्रुतिमागतौ । वसुदेवो
पिता नो हि घृणन्नतः ॥ ३५ ॥ जन्ममभृति चैवावा
नियोजितौ । तौ स्वः कंसभयात्तत्र शंकितौ परिवर्धितौ
वयं च मथमं प्राप्तौ मथुरार्या प्रवेशितौ । तावावा व्युत्ति
समाले कंसमोजसा ॥ ३७ ॥ पितरं तस्य तत्रैव र
जनेश्वरम् । स्वमेव कर्म चारब्धौ गवां व्यापारकारका
अथावधोः पुरं रोदधुं जरासन्धो व्यवस्थितः । संग्रामान्
कृत्वा लक्ष्यलक्ष्मावपि स्वयम् ॥ ३६ ॥ ततः स्वपुररक्षार्थं च
धृतव्रत । अकृतार्यावन्नुद्योगां कर्तव्यवत्ससाधनौ ॥ ४० ॥
पत्तिर्ना युद्धे निस्तनुर्ना निरायुधौ । जरासन्धोद्यमभयात्
उत्तर निःशंक होकर दीजियेगा हे परशुराम ! यमुनाजीके
पर हमारी मथुरा नाम वाली पुरी शोभा पारही है ३४ ।
आपने सुना हो, तो हे मुनिश्रेष्ठ ! हम दोनों यादव हैं, घृता
यदुश्रेष्ठ वसुदेवजी हम दोनोंके पिता हैं ॥ ३५ ॥ कंसके भय
जन्मसे ही हमें जगमें रक्खा गया था और हम तहाँ शंकित रह
हुए बड़े हुए थे ॥ ३६ ॥ हम जब मथुरामें घुसे तब तहाँ पहिले
प्रवेश करने पर हमने समाजमें उद्भूत कंसको यत्नपूर्वक मार
कर ॥ ३७ ॥ उसके पिताको ही तहाँ राजा बना कर गोश्रौको
हाकनेका काम करने वाले हमने अपना काम करना आरंभ कर
दिया था ॥ ३८ ॥ इसी समय जरासन्धने हमारे नगरको घेरने
का उद्योग किया था तब हमने बहुतसे संग्राम किये थे, उनमें
हमें लक्ष्मणासि होगई थी अर्थात् हमारी जीत होगई थी, हे घृता
व्रत ! तब भी हम अपनी पुरीकी रक्षा करनेके लिये अपने पास
सेना और साधन आदि होने पर भी उद्योग न करनेके कारण
अकृतार्थ होगए अर्थात् हमने युद्ध नहीं किया ३६-४० जरासंध

द्वावे । निःसृतौ ॥४१॥ उपावाचाप्रनुमाप्तौ मुनिश्रेष्ठ तवातिकम् ।
 आपयोर्षन्त्रगात्रेण कर्तुमहेसि सत्कियाम् ॥४२॥ श्रुत्वैतद्भार्गवो
 रामस्तगोर्वात्पनिदिताम् । रेणुकेषः प्रनिवचो धर्मसंहितप्रवचीत् ।
 अपरान्तादहं कृष्ण संगतोर्हागतः प्रभो । एक एव विना शिष्यै-
 र्युवयोर्षन्त्रकारणात् ॥४४॥ विदितो मे व्रजे वासस्त्वव पद्मनिभे-
 क्षण । दानवानां वधथापि कंसस्यापि दुरात्मनः ॥४५॥ विग्रहं
 च जरासन्धे विदित्वा पुरुगोत्तम । तव सभ्रातृकस्येदं समाप्तो-
 ऽस्मि वरानन ॥ ४६ ॥ जाने त्वं कृष्ण गोप्तारं जगतः प्रभु-
 गव्यगम् । देवकार्यार्थसिद्धयर्थगचालं बालतां गतम् ॥ ४७ ॥ न
 त्वयाऽविदितं किञ्चित्त्रिपु लोकेषु विद्यते । तथापि भक्तिगात्रेण
 शृणु वक्ष्यामि ते वचः ॥४८॥ पूर्वजैस्तन गोविन्द पूर्वं पुरगिदं

के उद्योगके भयसे हम दोनों नगरसे निकल पड़े इस समय न
 हमारे पास रथ हैं न पैदल हैं न कवन है और न आयुध हैं ४१
 हे मुनिश्रेष्ठ । अब हम आपके पास आ गए हैं, आप सलाह देकर
 हमारा सत्कार करिये ४२ रेणुकापुत्र भृगुवंशी परशुरामने उन
 के अनिन्दित वानरको सुन कर धर्ममय उत्तर दिया, कि ४३
 हे विभो ! तुम्हे सलाह देनेके कारण ही मैं शिष्योक्ते भी साथ
 ना लेकर पश्चिमसमुद्रसे यहाँ आया हूँ ४४ हे पद्मपत्रकी समान
 नेत्र वाले ! मैं आपको व्रजमें रहनेकी बात जानता हूँ, दानवोंके
 वधकी और दुरात्मा कंसके वधकी बात भी मुझे विदित है ४५
 हे वरानन ! जरासन्धके साथ तुम्हारे भाईका युद्ध हो रहा है,
 यह सुन कर मैं यहाँ आया हूँ ४६ हे कृष्ण ! मैं आपको जगत
 के रत्नक अन्यग मधु जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ, कि-
 आप देवताओंके कार्यको सिद्ध करनेके लिये बालक न होने
 पर भी बालक बन गए हैं ४७ त्रिलोकीमें ऐसी कोई बात नहीं
 है जो आपको विदित नहीं हो, तथापि भक्तिवश मैं जो कुछ

कृतम् । करवीरपुरं नाम राष्ट्रं चैव निवेशितम् ॥ ४६ ॥ पुरे
ऽस्मिन्वृषतिः कृष्ण वासुदेवो महायशाः । शृगाल इति विख्यातो
नित्यं परमकोपनः ॥ ५० ॥ वृषेण तेन गोविन्द तव वंशभवा
वृषाः । यादवा निहताः सर्वे वीरद्वेषानुशाधिना ॥ ५१ ॥ अहं-
कारपरो नित्यमजितात्माऽतिमत्सरी । राजैश्वर्यमदानिष्टः पुत्रे-
ष्वपि च दारुणः ॥ ५२ ॥ तन्नेह भवतः स्थानं रोचते मे नरो-
त्तम । करवीरपुरे घोरे नित्यं पार्थिवभाषिते ॥ ५३ ॥ श्रूयता
रुथयिष्यामि यत्रोर्षो शत्रुवाधनौ । जरासन्धवल्लोदग्रं भवन्तो
योषयिष्यतः प्रहतीर्त्वा वेणागिणां पुण्यां नदीमद्यैव वाहुभिः ।
विषयान्ने निवेशार गिरिं गन्ध्याम दुर्गमम् ॥ ५५ ॥ रम्यं यज्ञ-
गिरिं नाम सयस्य प्ररुह गिरिम् । निवासं गामभक्षाणां चौराणां

कहना हूँ उसको आप सुनिये ॥ ५० ॥ हे गोविन्द ! पहिले
तुम्हारे पूर्वजोंने यह करवीरपुर नामका राष्ट्र बसाया था ४६
हे कृष्ण ! पहिले यहाँ पर (दूमरे) वासुदेवका पुत्र शृगाल
नामसे प्रसिद्ध था वह सदा परम कोप करता रहता था ५०
वह सर्वदा वीरोंसे द्वेष करता रहता था हे गोविन्द ! उसने
तुम्हारे वंशज सब राजाओंको मार डाला था ॥ ५१ ॥ वह सदा
अहंकारमें भरा रहता था, अजितात्मा था, और परम मत्सर
रम्यता भाग्यो राज्य तथा ऐश्वर्यसे मत्त होकर पुत्रोंसेभी दारुण
पार्थिव किया कृता था ॥ ५२ ॥ हे नरोत्तम ! अत एव इस
राजाओंसे चर्नेद्वेष भयंकर करवीरपुरमें आपका निवास करना
मुझे उचित नहीं जँचना है ॥ ५३ ॥ तुम दोनों शत्रुपीडक जहाँ
पर रद्द कर जरासन्धके पलायन सेनादलसे युद्ध कर सकोगे,
उस स्थानमें मैं कहना हूँ, तुम सुनो ॥ ५४ ॥ इस पुण्यमयी
वेणागदीमें आज ही युनाओंसे तैर कर इस देशकी सीमायें
दुर्गम गिरिदुर्गमें जाकर राति बितावे ॥ ५५ ॥ उस सहायतामें

घोरकर्मणाम् ॥ ५६ ॥ नानाद्रुमलतायुक्तं चित्रं पुष्पितपादपम् ।
 प्रोष्य तत्र निशामेकां खट्वर्नागां नाग निम्नगाम् ॥ ५७ ॥ गदन्ते
 सन्तरिप्यागो निरुपोपलभूषणाम् । गङ्गाप्रतापप्रतिमां भ्रष्टां च
 महतो गिरेः ॥ ५८ ॥ तस्याः प्रयातं द्रव्यामस्तापसारणभूष-
 णम् । उपभुज्य त्विमान्, कामान् गत्वा तान् धरणीधरान् ॥ ५९ ॥
 द्रव्यामस्तत्र तान् विमाञ्छाम्यतो वै तपोधनान् । रम्यं क्रौंच
 पुरं नाम गमिष्यामः पुरोत्तमम् ॥ ६० ॥ वंशजस्तत्र ते राजा
 कृष्ण धर्मरतेः सदा । महाकपिरिति ख्यातो वनवास्यजना-
 धिपः ॥ ६१ ॥ तपद्दृष्ट्वा राजानं निवाम्नाय गतेऽहनि । तीर्थ
 मानडुहं नाम, तत्र स्थास्य म सङ्गताः ॥ ६२ ॥ तत्ररच्युता गमि-

उत्पन्न हृष्ट पर्वतकी नाम रमणीय यज्ञगिरि है, तहाँ पर मांसका
 भक्षण करने वाले घोरकर्मों चोर रहने है ॥ ५६ ॥ वह अनेक
 प्रकारकी बेल वृक्षोंसे गड्ढा हुआ है उसके वृक्ष पुष्पोंसे लदे
 रहने है तहाँ पर एक राजा रह कर खट्वाजा नाम वाली नदीको
 तैरेंगे, हे गद्रे । आपका फलपाण हो, वह नदी निरुप और
 पत्थरोंके भूषण धारण कर रही है, वह महान् पर्वतसे गिरने
 वाली नदी प्रतापमें-गङ्गाकी समान है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ हम
 तपस्वियोंके वनमें निभूषित उसके मपातको देखेंगे, हम इन
 पर्वतों पर जाकर इन कामोंको भोग कर ॥ ५९ ॥ तहाँ पर
 वानप्रस्थाश्रमी तपोधन त्रिमोंको देखेंगे फिर हम रमणीय क्रौंच-
 पुर नामक श्रेष्ठ नगरमें जावेंगे ॥ ६० ॥ हे कृष्ण ! तहाँ पर
 तुम्हारे वंशका ही राजा राजधर करता है, वह सदा धर्मसे प्रेम
 करता रहता है, वह वनमें बसने योग्य मनुष्योंका राजा महा-
 कपि नामसे प्रसिद्ध है ॥ ६१ ॥ दिन बीत जानेके कारण उस
 राजाको न देख कर हम एरुप्रित होकर आगडुह नामक तीर्थमें
 चवेंगे ॥ ६२ ॥ तहाँसे उठ कर हम सप्त पर्वतकी गुफामें होकर

ष्यामः सद्यस्य विचरे गिरिम् । गोमन्तमिति विख्यातं नैकशृङ्ग-
 विभूषितम् ॥ ६३ ॥ स्वगतैकमहाशृङ्गं दुरारोहं स्वगैरपि । विश्राम-
 भूतं देवानां ज्योतिर्भिरभिसम्भृतम् ॥ ६४ ॥ सोपानभूतं स्वर्गस्य
 गगनद्विगिबोच्छ्रितम् । तं विमानावतरणं गिरिं मेरुमिवापरम् ६५
 तस्योत्तमे महाशृङ्गे भास्वन्तो देवरूपिणौ । उदयास्तमये सूर्यं सोमं
 च ज्योतिषां पतिम् ॥ ६६ ॥ ऊर्मिमन्तं समुद्रं च अपारद्वीप-
 भूषणम् । प्रेक्ष्यमाणौ सुखं तत्र नगाग्रो विचरिष्यथः ॥ ६७ ॥
 शृङ्गस्थौ तस्य शैलस्य गोमन्तस्य धनेचरौ । दुर्गयुद्धेन धान्तौ
 जरासन्धं विजेष्यथः ॥ ६८ ॥ तत्र शैलगर्तो दृष्ट्वा भवन्तो युद्ध-
 दुर्मदौ । अशक्तः शैलयुद्धे वै जरासन्धो भविष्यति ॥ ६९ ॥
 भवद्भयामपि युद्धे तु प्रवृत्ते तत्र दारुणे । आयुधैः सह संगोर्गं
 पश्यामि न निरादित्र ॥ ७० ॥ संग्राहश्च महान् कृष्ण निर्दिष्ट-

अनेक शृङ्गोंसे विभूषित गोमन्त नामक पर्वत पर जावेंगे ॥ ६३ ॥
 उसमें एक ही शिखर है, पत्नी भी उस पर कठिनतासे चढ़ सकते
 हैं तहाँ देवता विश्राम लीगा करने हैं और वह ज्योतियोंसे घिरा
 हुआ है ॥ ६४ ॥ वह स्वर्गकी सीढीरूप है और आकाशमें पर्वत
 की समान उठा हुआ है तहाँ पर विमान उतरते हैं और, वह
 दूमरे मेहपर्वतकी समान है ॥ ६५ ॥ तहाँ पर तुम प्रकाशवान्
 देवताओंकी समान उदय और अस्तके समय सूर्य और ज्योतियों
 के स्वामी चन्द्रमाके और अपार द्वीपोंके भूषणको धारण करने
 वाले लहरों वाले समुद्रको देखते हुए सुखपूर्वक विचरण
 करना ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ उस गोमन्त पर्वतके शिखर पर खड़े
 होकर तुम दुर्गयुद्धसे वनमें विनरण कर और दौड़ कर जरा-
 सन्धको जीत सकोगे ॥ ६८ ॥ तुम युद्धदुर्मदोंको पर्वत पर देख
 कर जरासन्ध पर्वत युद्ध करनेमें असमर्थ रहेगा ॥ ६९ ॥ और
 नहीं दारुण युद्ध होने पर मेरा विचार है, कि-तुम्हें शीघ्र ही

स्तत्र दैवतैः । यद्गदां पार्थिवानां च गांसशोणितकर्दमः ७१ तत्र
 चक्रं हलं चैव गदां कौमोदकीं तथा । सौनन्दं मुशलं चैव वैष्ण-
 यान्यायुधानि च ॥ ७२ ॥ दर्शयिष्यन्ति संग्रामे मास्यन्ति च
 महीक्षिताम् । रुधिरं कालयुक्तानां, षष्ठुभिः कालसन्निभैः ७३
 स चक्रमुशलो नाम संग्रामः कृष्ण विश्रुतः । दैवतैरिह निर्दिष्टः
 कालस्यादेशसंज्ञितः ॥ ७४ ॥ तत्र ते कृष्ण संग्रामे सुव्यक्तं
 वैष्णवं षष्ठुः । द्रक्ष्यन्ति रिपवः सर्वे सुराथ सुरभावन ॥ ७५ ॥
 तां भजस्व गदां कृष्ण चक्रं च चिरविस्मृतम् । भजस्व स्वेन
 रूपेण सुराणां विजयाय ही ॥ ७६ ॥ बलधायं हलं घोरं मुशलं
 चारिमर्दनम् । वपाय सुरशत्रूणां भजतन्लोकभावनः ॥ ७७ ॥
 एष ते प्रथमः कृष्ण संग्रामो भुवि पार्थिवीः । पृथिव्यर्थे समा-

आयुध प्राप्त होजावेगे ७० तहाँ पर देवताओंने यादवोंका और
 राजाओंका बड़ा भारी संग्राम (पहिलेसे ही) रचदिया है तहाँ
 पर मांस और रक्तकी भीच होजावेगी ७१ तहाँ संग्राम होनेपर
 चक्र हल कौमोदकी गदा सौनन्द नामक मूसल और २ वैष्णव
 आयुध प्रकट होजावेगे और कालधर्मसे संयुक्त राजाओंके काल
 की समान शरीरोंके रुधिरमें पहुँचेंगे ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ हे कृष्ण !
 देवताओंने कालके आज्ञापत्रकी समान चक्रमुसल नामक मसिद्
 संग्राम यहाँ रच दिया है ॥ ७४ ॥ हे कृष्ण ! हे सुरभावन !
 उस समय आपके शत्रु और देवता आपके वैष्णव शरीरको
 भली भाँति देखेंगे ॥ ७५ ॥ हे कृष्ण ! आप उस गदाको धारण
 करिये और देवताओंकी विजयके लिये अपने स्वरूपसे उस
 चिरकालसे विस्मृत चक्रको भी ग्रहण करिये ॥ ७६ ॥ और यह
 लोकभावन बलराम देवशत्रुओंका वध करनेके लिये चारिमर्दन
 भयङ्कर मूसल और हलको ग्रहण करें ॥ ७७ ॥ हे कृष्ण !
 पृथ्वीका भार उतारनेके लिये देवताओंने "तुम्हारा राजाओंके

क्यागे भारानन्तर खेँ घुरैः ॥७८॥ ॥ आयुधावाप्तिरथैव, वपुषो
 वैष्णवस्य त्र । लक्ष्म्याश्च तेजसश्चैव व्यूहानां च विदारणम् ७६
 ज्ञानः मभृति संग्रापो यमस्यां शस्त्रमूर्च्छितः । भविष्यति महान्
 कृष्ण भारतं नाम दौशंसम् ॥ ८० ॥ तद्रन्दं कृष्ण शैलेन्द्रः
 गोमन्तं, च नगोत्तमम् । जरासन्धमृधे चापि विजयस्त्वामुप-
 स्थितः ॥ ८१ ॥ इदं चैवामृतमकृत्यं होमधेनोः पयोऽमृतम् ।
 पीत्वा गच्छत, भद्रं वो मयादिष्टेन कर्मणा ॥ ८२ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपार्वण्ये रामवाक्ये

नाम एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

वैशम्पायन उवाच । तनु धेन्वा न्ययः पीत्वा बलदर्पसम-
 न्वितौ । नवस्तौ रागसहितौ प्रस्थितौ यदुपद्रुतौ ॥ १ ॥ गोमन्तं
 पर्वतं द्रुपदुं मत्तनागेन्द्रगामिनौ । जागदग्न्यपदिष्टेन मार्गेण वेदता

साथ यह संग्राम डाना पहिले ही कह रक्खा है ॥७८॥ यहीं
 पर तुम्हें आयुध मिलेंगे और वैष्णव शरीर लक्ष्मी और तेज
 मिलेगा और यहीं पर तुम शत्रुसेनाओंको विदीर्ण करोगे ७६
 इसके अनन्तर हे कृष्ण ! पृथ्वीमें एक और शस्त्रमूर्च्छित संग्राम
 होगा, हे कृष्ण ! वह युद्ध महाभारत नामक होगा ॥ ८० ॥
 हे कृष्ण ! इसलिये आप पर्वतश्रेष्ठ गोमन्त पर्वत पर जाइये,
 जरासन्धके साथ युद्ध होनेपर विजय तुम्हारे ही हाथ रहेगी ८१
 थाप डम होगेनुके अमृतकी समान दुग्धको पीकर आइये, मेरे
 उपदिष्ट कर्मसे आपका कल्याण होगा ॥ ८२ ॥ उन्तालीमवाँ
 ह्यन्याय समाप्त ३६ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-हम गौके दुग्धको पीकर बल
 और दर्प बाले घनेहुए यदुपद्रुतव परशुगामजीके साथ २ चल
 दिये ॥ १ ॥ वे मदमत्त नागेन्द्रकी सपानं गमन करनेवाले
 वनाओंमें श्रेष्ठ वत्तराम और कृष्ण परशुरामजीके वनाये मार्ग

चरौ ॥२॥ जामदग्न्यतृतीयांस्ते भयस्त्रय इवांगनयः । शोभयन्ति
 रम्यं पन्थानं त्रिदिवं त्रिदशा इष ॥ ३ ॥ ते चाध्वविधिना सर्वे
 ततो वै दिवसक्रमात् । गोमन्तमचलं मासा मन्दरं त्रिदशा इव ४
 लताचारुचित्रं च नानाद्रुपविभूषितम् ॥ नानागुरुनिर्द्धांगं
 चित्रं चित्रमनोहरं ॥ ५ ॥ द्विरेकगणसंकीर्णं शिलासंयुतपादि-
 पम् । मन्त्रवर्दिणनिर्वोपेनीदितं मेघनादिभिः ॥ ६ ॥ गमनालम्ब-
 शिखरं जलदासक्तपादपम् । मत्तद्विषविपाणामैः परिघृष्टोप-
 लांकितम् ॥ ७ ॥ कूजद्विथाङ्गनगणैः समन्तात् प्रविनीदितम् ।
 देरीपपाताम्बुरवैशङ्गनं शार्दूलपल्लवैः ॥ ८ ॥ नीलाम्बुपत्रयः
 संशतैर्वहुतर्ष्यं यथा घनम् । धातुविस्त्रावद्विश्रान्तं सान्द्रपल्लवधूरि-
 से गोमन्त पर्वतको देखनेके लिये षडने लगे ॥२॥ शिखर साय
 में तीसरे परशुराम थे ऐसे वे तीनों तीग आग्नियोंकी समान
 दीखते थे और त्रिदशा (देवताओं) के त्रिदिव (स्वर्ग) को
 सुशोभित करनेकी समागमार्गको सुशोभित कर रहे थे ॥ ३ ॥
 वे मार्गविधिसंक्रमणः दिन बितारते हुए मन्दराचल पर पहुँचने
 वाले देवताओंकी समागम गोमन्त पर्वत पर पहुँच गये ॥ ४ ॥
 वह पर्वत सुन्दर लताओंसे विचित्र मतीत होता था अनेक प्रकार
 के वृत्तोंसे विभूषित था अनेक प्रकारके भारी २ पदार्थोंसे उसके
 शिखर भर रहे थे और वह मनोहर । पदार्थोंसे विचित्र दीख
 रहा था ॥ ५ ॥ उसके भूँसे भर रहे थे और शिला तथा वृत्तोंके
 कारण वह संयुक्तमय हो रहा था और मेघकी समान शब्द करने
 वाले मत्त पदार्थोंसे वह गुञ्जार रहा था ॥ ६ ॥ उसके शिखर
 आकाशसे लग रहे थे और उसके वृत्त में घोंटे सट रहे थे और
 उसके पत्थर गदमत्त हाथियोंके दाँतोंके कृमिमागसे रगड़े हुए
 थे ७ और वह चारों ओर चहचहाते हुए प्रतिगोंके शब्दसे
 गुञ्जार रहा था ८ और नीले पत्थरोंके ढेरके कारण वह अनेक

तम् ॥६॥ कीर्णं सुरगणैः कान्तैर्वैनाकमिव कामगम् । उच्छ्रितं
सुविशालाग्रं समूशान्धुपरिस्रवम् ॥ १० ॥ सकाननदरीप्रस्थं
रवेनाभ्रगणभूषितम् । पमसाम्नामकाभ्रौवैर्वेत्रस्यन्दनचन्दनैः ११
तमालैल्लाननयुतं मरीचक्षुपसङ्कुलम् । पिप्पलीवन्निलकलिलं
चित्रमिड्गुदिपादपैः ॥ १२ ॥ द्रुमैः सर्जरसानां च सर्वतः 'परि-
शोभितम् । मांशुशालवर्णैर्गुग्गुं बहुचित्रवर्णैर्पुनम् १३ सर्जनिम्बार्जुन-
वनकण्टकीकुलसङ्कुलम् । हिन्तालैश्च तमालैश्च पुन्नागैश्चोपशोभि-
तम् ॥१४॥ जलेषु जलजैरश्वत्थं स्थलेषु स्थलजैरपि । पङ्कजै-
र्द्रुमम्बुडैश्च सर्वतः प्रतिभूषितम् ॥ १५ ॥ जम्बूजम्बूलटकादयं
कद्रुकंदलभूषितम् । चम्पकाशोकवकुलं बिल्ववर्तिदुकशोभितम् १६

वर्णवाले मेघसा दीख रहा था उसका शरीर धातुओंके बहनेसे
सन रहा था, और वह शिखरोंसे टपकते हुए भरनोंसे शोभा
पारहा था ६ और रमणीय देवताओंसे विला हुआ था, और
मैनाककी सगाङ्ग इन्द्रानारी था और बहुत ऊँचा उठा हुआ
था, और जड़से जल बहा रहा था १० उसके शिखरों पर वने
और गुफागै थीं और वह श्वेत वादलोंकी घटाओंसे विभूषित
रहता था और कटइहा, छोटे आम, आम वेत स्यन्दन, चन्दन
तमाल और इलायचियोंके वनसे विभूषित रहता था, और मिर्च
तथा क्षुपसे व्याप्त था और पीपलकी बन्नियोंसे व्याप्त था और
इमलियोंके वृत्तोंसे विचित्र दीखता था ११-१२ और चारों ओर
से रालके वृत्तोंसे सुशोभित था और ऊँचेर सालके वनोंसे
रञ्जित था और अनेक प्रकारके चित्रवनोंसे रञ्जित था १३ सर्ज
नीम्बू अर्जुन और वनकण्टकीके कुलसे संयुक्त था और कमल
तथा वृत्तोंके टुकड़ोंसे चारों ओरसे भूषित था । १५ । जम्बीरी
नीम्बू और केतकीके वृत्त तराँ अधिकतर लग रहे थे कद्रु और
कन्दलोंसे भूषित था और चम्पक अशोक वकुल और तिट्ठुकोंसे

कुञ्जेश नागपुष्पैश्च सगन्तादुपशोभितम् । नागयूथसमाकीर्णं
 मृगसंघातशोभितम् ॥ १७ ॥ सिद्धचारणरत्नोभिः सेवितमस्त
 रान्तरम् । गन्धर्वैश्च समायुक्तं गुह्यकैः पक्षिभिस्तथा ॥ १८ ॥
 विद्याधरगणैर्नित्यमनुकीर्णशिलातलम् । सिंहशार्दूलसन्नादैः
 सततं प्रतिनादितम् । सेवितं वारिधाराभिश्चन्द्रपादैश्च शोभितम्
 स्तुतत्रिदशगन्धर्वैरप्सरोभिरर्लकृतम् । वनस्पतीनां दिव्यानां
 पुष्पैरुच्चावचैः श्रितम् ॥ २० ॥ शक्रवज्रप्रहाराणामभयिज्ञं पदा
 चन । दावाग्निभयनिर्मुक्तं महावातभयोऽभ्रितम् ॥ २१ ॥
 प्रपातप्रभवाभिश्च सरिद्धिरुपशोभितम् । कान्तैराननाकारैर्विशे
 पद्भिरिव श्रियम् ॥ २२ ॥ जलशैबलशृङ्गाग्रैरुन्मिषन्तमिव
 सुशोभितं या १६ कुञ्ज और नागकेसरके वृत्तोसे सुशोभित
 था, हाथियोंके झुण्डोंसे गङ्गा हुआ था और मृगोंके झुण्डोंसे
 सुशोभित था, १७ उसकी शिलाओं पर सिद्ध चारण और
 राक्षस बैठे रहते थे और तहाँ पर ग्रन्थ्य गुह्यक, और पक्षी
 रहते थे १८ उसकी शिलाओं पर गन्धर्व सदा, बैठे रहते थे
 और वह पर्वत सिंह और शार्दूलोंकी गर्जनासे निरन्तर प्रति-
 ध्वनित होता रहता था जलधारायें उसका सेवन कर रही थी
 और वह चन्द्रमाकी किरणोंसे सुशोभित रहता था १९ देवता
 और गन्धर्व उसकी प्रशंसा कर रहे थे और वह अप्सराओंसे
 अर्लकृत हो रहा था और दिव्य वनस्पतियोंके ऊँचे नीचे पुष्पों
 से अलंकृत हो रहा था २० और वह इन्द्रके वज्रके प्रहारसे
 अभयान था, और दावाग्निके भयसे निर्भय था और आँधोंके
 भयसे मुक्त था २१ और प्रपातके यहाँ उत्पन्न होनेवाली नदियों
 से उपशोभित था और उसके मुखकी समान आकारवाले वन
 उसकी शोभाको प्रसार रहे थे २२ और जलसिवार और शिखरों
 के अग्रभागसे वह लक्ष्मीसे उन्मेष करता हुआ सा दीखता था

श्रियाः । स्थलीभिर्मृगजुष्टाभिः कान्ताभिरुपशोभितम् ॥ २३ ॥
 पार्श्वरूपल कल्पमार्गैर्मैघैरिव विभूषितम् । पादप्रच्छन्नभूमीभिः
 सपुष्पाभिः समन्ततः ॥ २४ ॥ अखिडतः वनराजिभिः प्रगदाभिः
 पतिं यथा । सुन्दरीभिर्दरीभिश्च कन्दराभिस्तथैव च ॥ २५ ॥
 तेषु तेष्ववकाशेषु सदारमित्रशोभितम् । औपधीदीप्तशिखरं
 वानप्रस्थनिषेधितम् । जानरूपैर्वनौद्देशैः कृत्रिमैरिव भूषितम् २६
 मूलेन सुविशालेन शिरसाप्युच्छिन्नेन च । पृथिवीमन्तरिक्षं च
 गाहयन्तमिव स्थितम् ॥ २७ ॥ ते तपरसाद्य गोमन्तं रम्ये भूमि-
 धरोत्तमम् । रुचिरं रुरुचुः सर्वैः प्रासायामरसन्निभैः ॥ २८ ॥
 रुरुहुस्ते निरिवरं स्वमूर्ध्वगिव पक्षिणः । असज्जमाना वेगेन
 वनतैयपराक्रमाः ॥ २९ ॥ ते तु तस्योत्तरं शृङ्गमाखडास्त्रिदशा

और मृगोंसे सेवित मनोहर स्थलियोंसे शोभा पारंहा था २३
 और पत्थरोंके कल्पमापनाले पार्श्वोंसे सुशोभित था तथा और
 पुष्पित तलेटियोंसे सुशोभित था २४ जैसे किश्रियोंसे पति धिरों
 रहता है, इसी प्रकार वह वनराजियोंसे अखिडत था और रणणीय
 कन्दराओंसे सुशोभित था २५ इन सबसे स्थान रम्य वह अपनी
 स्त्रीसहितकी समान शोभा पाता था, उसके शिखर औपधियों
 से मदीप्त रहते थे और इस पर वानप्रस्थाश्रमी रहते थे और
 मह वनोद्देशोंसे कृत्रिम चौदोंसे सुशोभित प्रतीत होता था २६
 वह अपनी सुविशाले जंङ्ग और उठे हुए शिखरसे पृथ्वी और
 अन्तरिक्षको आसोड़न करता हुआ साखड़ा था २७ उन देव-
 प्रतिम तीनों व्यक्तियोंने वसः पर्वतश्रेष्ठ रणणीय गोमन्त पर्वतको
 देखे उसके गिनासः करनेके लिये स्वीकृत कर लिया २८ जैसे
 पक्षी आकाशमें ऊपरको चिदते हैं, ऐसे ही ये गोमन्त पर्वत पर
 लड़ने लगे, ये वनतैयकी समान पराक्रमी योगसे किसीको न
 चूते हुए चतने लगे २९ वे उसके उत्तर शिखर पर देवताओंकी

इव । अगारं सहस्रं च कुर्मनसा निर्मितोपमम् ॥ ३० ॥ निविष्टो
यादवां हृष्टा जामदग्न्यो मङ्गलतिः । राधोऽभिमतमन्विलापमापद्दु
मुपचक्षमे ॥ ३१ ॥ कृष्ण यास्याम्भहं तान पूरं शूर्पारक विभो ।
युवयोर्भास्ति वीर्युख्य संग्रामे दानवैरपि ॥ ३२ ॥ प्राप्तवानस्मि
यां प्रीतिं मार्गानुगमनादपि । सा मे कृष्णाऽनुश्रुत्वाति शरीरमिदं
मव्ययम् ॥ ३३ ॥ इदं यस्त्स्थानमुद्दिष्टं गत्रायुधसंगागमः । युवयो-
र्विहितो देवैः सपयः सांपराधिकः ॥ ३४ ॥ देवानां मुख्यं वीरुण्ड
विष्णो देवैरभिष्टुन । कृष्ण सर्वस्य लोकेऽस्य शृणु मे नैष्ठिकं
वचः ॥ ३५ ॥ यदिदं मस्तुतं कर्म स्वयां गोविन्द लौकिकम् ।
मानुषाणां हितार्थाय लोके मानुषदेहिना ॥ ३६ ॥ तस्यायं मथमः
कल्पः कालेन तु विभोजितः । जरासन्धेन, चै सार्धं संग्रामे समु

सगान चढगए, तहाँ उन्होंने भानो मनसे ही रच लिया हो इस
मकार (सहस्रं भवन बना लिया ३० बुद्धिमान परशुरामजी
दोनों यादवाँको बैठे देखकर अपना अभिमत कहने लगे ३१
कि-हे तौत कृष्ण ! मैं शूर्पारकपुरको जा रहा हूँ, तुम दोनोंको
दानव भी संग्राममें विमुख नहीं कर सकते ३२ आपके साथ
मार्गमें चलनेसे मुझे जो मसन्नता हुई है, हे कृष्ण ! उससे मेरे
इस अश्वय शरीर पर बड़ा अनुग्रह हुआ है ३३ जहाँ पर तुम्हें
आयुध मिलेंगे वही स्वर्ग परलोक दिनकर कागोंमें बितानेका स्थान
पहिले देवताओंने तुम्हारे लिये रचदिया है ३४ आप देवताओं
में मुख्य हैं, वीरुण्ड हैं, और हे विष्णो ! देवता आपकी स्तुति
करते हैं, हे कृष्ण ! सब लोकोंके तत्त्वही घान सुनिये ३५ हे
गोविन्द ! तुमने मनुष्योंका शरीर धारण कर मनुष्योंका हित
करनेके लिये जो यह लौकिक कर्म आरम्भ किया है ३६ जरा-
सन्धके सार्धसंग्राम होनेपर उसके मथम प्रयोगको कालने विभो-
जित कर दिया है ३७ अब इस युद्धमें हे कृष्ण ! आप ही

श्रिया । स्थलीभिर्मृगजुष्टाभिः कन्ताभिरुपशोभितम् ॥ २३ ॥
पार्श्वैरुगलकल्मषैर्मैद्यौरिव, विभूषितम् । पादप्रच्छन्नभूमीभिः
सपुष्पाभिः समन्ततः ॥ २४ ॥ मण्डित वनराजीभिः प्रगदाभिः
पनि वथा । सुन्दरीभिर्दरीभिश्च कन्दरभिस्तथैव च ॥ २५ ॥
तेषु तेष्ववकाशेषु सदारमिव शोभितम् । औपधीदीप्तशिखरं
वानप्रस्थनिषेधितम् । जानरूपैर्वनोद्देशैः कृत्रिमैरिव भूषितम् २६
मूलेन सुविशालेन शिरसाप्युच्छ्रितेन च । पृथिवीमन्तरिक्षे च
गाहयन्तमिव स्थितम् ॥ २७ ॥ ते तगरसाद्य गोमन्तं रम्ये भूमि-
धरोत्तमम् । रुचिरं रुरुचुः सर्वैर्वासायामरसन्निभैः ॥ २८ ॥
रुरुहुस्ते किरिवरं श्वमूर्ध्वमिव पत्निणः । असत्त्वमाना वेगेन
वेनतेयपराक्रमाः ॥ २९ ॥ ते तु तस्योत्तरं शृङ्गमारुहास्त्रिदशा

और मृगोंसे सेवित मनोहर स्थलियोंसे शोभा पारहा था २३
और पत्थरोंके कल्मषवाले पार्श्वोंसे सुशोभित था तथा और
पुष्पित तल्लटियोंसे सुशोभित था २४ जैसे शिखरोंसे पति धिरा
रहता है, इसीप्रकार वह वनराजियोंसे मण्डित था और रणलीय
कन्दराओंसे सुशोभित था २५ इन सबसे स्थानमें वह अपनी
स्त्रीसहितकी समान शोभा पाता था, उसके शिखर औपधियों
से मदीप्त रहते थे और उम पर वानप्रस्थाश्रमी रहते थे और
वह वनोद्देशोंसे कृत्रिम चोदीसे सुशोभित प्रतीत होता था २६
वह अपनी सुविशाल जेड और उटे हुए शिखरसे पृथ्वी और
अन्तरिक्षको आसोड़न करता हुआमारुहा था २७ उन देव-
प्रतिम तीनों व्यक्तियोंने उस पर्वतश्रेष्ठ रणलीय गोमन्त पर्वतको
देख उसको गिवास करनेके लिये स्वीकृत करलिया २८ जैसे
पत्नी आकाशमें ऊपरको चढ़ते है, ऐसे ही वे गोमन्त पर्वत पर
चढ़ने लगे, वे वेनतेयकी समान पराक्रमी वेगसे किसीको न
दृते हुए चढ़ने लगे २९ वे उनके उत्तर शिखर पर देवनाओंकी

इव । अगारं महर्षो नकुर्मनसा निर्मितोगमम् ॥ ३० ॥ निचिष्टौ
यादवो दृष्ट्वा नामदग्धो मङ्गलतिः । रामोऽभिव्रतमन्त्रिताष्टमापट्ट
मुपनवमे ॥ ३१ ॥ कृष्णे याम्याम्बहं तांत पूरं शूर्पारक विभो ।
युवयोर्गास्ति वैशुख्य संग्रामे दानवैरपि ॥ ३२ ॥ प्राप्तवानस्मि
यां प्रीतिं पार्गानुगमनादपि । सा मे कृष्णाहुगृह्णाति शरीरमिदं
गव्ययम् ॥ ३३ ॥ इदं यत्स्थानमुद्दिष्टं गत्रायुधसंगागमः । युवयो-
र्विद्विषो देवीः सगपः सांपराधिकः ॥ ३४ ॥ देवानां मुख्यं वैकुण्ठ
विष्णो देवैरभिष्टुत । कृष्ण सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठु मे नैष्ठिकं
वचः ॥ ३५ ॥ इदिदं मस्तुतं कर्म त्वया गोविन्द लौकिकम् ।
गानुपाणां हितार्थाय लोके गानुपदेहिना ॥ ३६ ॥ तस्यायं प्रथमः
कल्पः कालो तु वियोजितः । जरासन्धेन वै सार्धं संग्रामे समु

सगान चदगार, तहाँ उन्होंने मानो मनसे ही रच लिया हो इस
प्रकार (सहस्रों भवन बना- लिया ३० बुद्धिगान परशुरामजी
दोनों बाँधवोंको बैठे देखकर अपना अभिमत कहने लगे ३१
कि-हे तांत कृष्ण ! मैं शूर्पारकपुरको नारहा हूँ, तुम दोनोंको
दाजब भी संग्राममें विमुख नहीं कर सकते ३२ आपके साथ
मार्गमें चलनेसे मुझे जो मसन्नता हुई है, हे कृष्ण ! उससे मेरे
इस अशुभ शरीर पर बड़ा अनुग्रह हुआ है ३३ जहाँ पर तुम्हें
आयुध मिलेंगे वही वह परलोक हितकर कार्योंमें बितानेका स्थान
पहिले देवताओंने तुम्हारे लिये रचदिया है ३४ आप देवताओं
में मुख्य हैं, वैकुण्ठ हैं, और हे विष्णो ! देवता आपकी स्तुति
करते हैं, हे कृष्ण ! सब लोकोंके तत्त्वही यान सुनिये ३५ हे
गोविन्द ! तुमने मनुष्योंका शरीर धारण कर मनुष्योंका हित
करनेके लिये जो यह लौकिक कर्म आरम्भ किया है ३६ जरा-
सन्धके साथ संग्राम होनेपर उसने प्रथमःमयोगको कालने वियो-
जित कर दिया है ३७ अब इस युद्धमें हे कृष्ण ! आप ही

पस्थिते ॥ ३७ ॥ तत्रायुधवलां चैव रूपं चरणकर्कशम् । स्वय-
मेवात्मन्य कृष्ण त्वपाऽऽत्मानं विधत्स्व ह ॥ ३८ ॥ चक्रोद्यतकरं
दृष्ट्वा स्वां गदापाणिमाहरे । चतुर्दिगुणपीनांसं विभ्येदपि शत-
क्रतुः ॥ ३९ ॥ अथ प्रभृति ते यात्रा स्वर्गोक्ता समुपस्थिता ।
पृथिव्यां पार्थिवेन्द्राणां कृतास्त्रैस्त्वयि मानद ॥ ४० ॥ वैनते-
यस्य चाह्वानं वाहनं भवजर्मणः । कुरु शीघ्रं-महाबाहो गोविन्द
वदताम्बर ४१ युद्धकामा नृपतयस्त्रिदिवागिमुखीघताः । धार्त-
राष्ट्रस्य वशगास्तिष्ठन्ति, रणवृत्तयः ४२ राज्ञां निषनदृष्टार्था वीधन्ये-
नाभिवसिता । एकवेणीधरा चेयं वसुधा त्वां प्रतीक्षते ॥ ४३ ॥
सग्रहं कृष्ण न क्षत्रं संक्षिप्यारिविपर्दन । त्वयि मानुष्यमापन्ने

आयुध बल रणकर्कश रूप आदि अपनी आत्मासे अपने आप
ही बनिये (यास्कने भी कहा है, कि—“आत्मैर्वापा रथो भव-
त्यात्मारवा आत्मायुध आत्मैष वै आत्मा सर्वं देवस्य,,) ३८
आठ पुष्ट स्कन्धों वाले हाथमें गदा और चक्र घुमानेवाले आप
को देखकर साक्षात् इन्द्र भी डर जाता है (इससे परशुरामजीने
यह सूचित किया, कि—कृष्ण साक्षात् विष्णु हैं, उनका द्विभुज
रूप अत्रिदृष्टदृश्य है और अष्टभुज रूप-विद्वद्दृश्य है) ३९
यह तुम्हारी स्वर्गोक्त यात्राका समय आगया है क्योंकि-मानद !
अब राजे और तुम भी कृतास्र हो ४० हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ महा-
भुज गोविन्द ! अब आप भवजर्मणके वाहन वैनतेयका आह्वान
करिये ४१ अब राजे स्वर्गकी ओर जानेके लिये अभिसुगम हो
कर युद्ध करना चाह रहे हैं और रणसे आजीवन करते हुए
दुर्योधनके वशमें रहने हैं ४२ राजाओंकी मृत्युको देखने वाली
अब एव आगामी वैधन्यसे गृहीत पृथ्वी एकवेणीधरा होकर
अर्थात् अपने कर्णोंको न सजाकर आपकी ओर देख रही है ४३
हे अरिविपर्दन श्रीकृष्ण ! तुम मानुषशरीरमें आगए हो और

युद्धे च समुपस्थिते ॥ ४४ ॥ त्वरम्ब कृष्ण - युद्धाय दानवानां
 वधाय च । स्वर्गामं च नरेन्द्राणां देवतानां सुम्नायः च ॥ ४५ ॥
 सत्कृतोऽहं त्वया कृष्ण लोकेऽथ सचराचरैः । त्वया सत्कृतरूपेण
 येन सत्कृतवाहनम् ॥ ४६ ॥ साधयापि महाबाहो भवतः कार्य-
 सिद्धये । स्पर्तशोधास्मि युद्धेषु-कान्तारेषु, महीक्षिताम् ॥ ४७ ॥
 इत्युक्त्वा जगदग्न्यस्तुः कृष्णमविलष्टकारणम् । जपशिषा वर्ध-
 पित्वा जंगामाभीप्सिर्ता-दिशम् ॥ ४८ ॥
 इति श्रीमहाभारते ब्रह्मविष्णु-हरिवंशे विष्णुपर्वणि गोमन्तारोहणं
 नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥
 वैशम्पायन उवाच । जगदग्न्ये गते रामे तौ यादवकुलोद्बहौ ।
 गोमन्तशिखरे रम्भं चरतुः कामरूपिणी ॥ १ ॥ वनमालाकुलो-

युद्ध पास आगया है, इस कारण ज्ञानसमूह संकुचित नहीं होता,
 किन्तु मरणके लिये उत्सुक हो रहा है (क्योंकि-वह क्रूर ग्रहोंसे
 आक्रान्त हो रहा है) ४४ हे कृष्ण ! अब आप युद्ध करनेके
 लिये, दानवोंका वध करनेके लिये और राजाओंको स्वर्गमें भेजने
 के लिये तथा देवताओंको सुखी करनेके लिये शीघ्रता करिये ४५
 हे कृष्ण ! आप सत्कृत रूप हैं ऐसे आपने मेरा सत्कार किया
 है अतः हे कृष्ण ! आप (विश्वात्मा) के सत्कार करनेसे भानो
 सचराचर लोकोंने ही मेरा सत्कार कर लिया ४६ हे महाशुंज !
 अब मैं आपके कार्यको सिद्ध करूँगा, आप राजाओंके भयंकर
 युद्धोंमें मेरा स्मरण किया करना ४७ जगदग्निके पुत्र परशुराम
 जी बिना क्लेश पाये कर्म करने वाले श्रीकृष्णसे इस प्रकार कह
 कर और उनको जपकी अशीर्वादोंसे बढ़ाते हुए अपनी अभीष्ट
 दिशाको चले गए ४८ चालीसवाँ अध्याय समाप्त ४०

वैशंपायनजीने कहा, कि- वे इच्छानुसार रूप धारण करने
 वाले, यादवकुलोद्बह राम और कृष्ण जगदग्निपुत्र परशुरामजीके

रस्की नीलपीताम्बरावुभौ । नीलश्वेतवपुष्मंतौ गगनस्थाविवा-
 युदौ ॥ २ ॥ तौ शैलधातुद्रिभांगौ युतानौ शिखरे स्थितौ ।
 चेरतुस्तत्र क्रान्तेषु वनेषु रतिलालसा ॥ ३ ॥ उदपन्तं निरी-
 जन्तो शशिनं ज्योतिषां वरम् । उदयास्तमने चैव ग्रहाणां धरणी-
 धरे ॥४॥ अथ संकल्पणः श्रीपान्विना कृष्णेन वीर्यवान् । चचार
 तस्य शिखरे नगस्य नगसन्निभः ॥ ५ ॥ प्रफुल्लस्य कदम्बस्य
 सुन्द्याये निपसाद ह । वायुना मन्दगन्धेन बीज्यमानो सुखेन
 वै ॥६॥ तस्य तेनानिलोद्येन सेव्यमानस्य तत्र वै । मधसंस्पर्शजो
 गन्धः संस्पृशन्प्राणमागतः ॥७॥ तृष्णा चैनं विवेशाशु वारुणी-

चले जाने पर गोमन्तपर्वतके रमणीय शिखर पर विचरण करने
 लगे ॥ १ ॥ नीला और पीला वस्त्र धारण करने वाले और
 नीले तथा श्वेत शरीरवाले और वनमालाओंसे आच्छादित हृदय
 वाले वे दोनों आकाशमें स्थित वादलोंकी समान प्रतीत हो रहे
 थे ॥ २ ॥ उनके शरीर पर्वतकी धातुओंसे रंग गए थे शिखर
 पर स्थित वे नरकण राग कृष्ण रतिकी लालसासे रमणीय
 वगीनोंमें घुमने लगे ३ वह ज्योतियोंमें और ग्रहोंमें उत्तम उदय
 होते हुए चन्द्रमाको निहारते हुए (विचरने लगे) और उस
 पर्वत पर चन्द्रोदय तथा चन्द्रास्तके समय (विचरने लगे) ॥४॥
 एक समय पर्वतकी समान शरीर वाले वीर्यवान् बलराम
 श्रीकृष्णकी छोड़ कर अनेके ही उस पर्वत पर विचरण कर रहे
 थे ॥ ५ ॥ उस समय वह फूल वाले कदम्बकी शोभन छायामें
 बैठ गए , उस समय मंद २ चलता हुआ मन्दगंध वायु उनको
 सुख देने लगा ॥ ६ ॥ जिस समय वह वायु उनकी सेवा करने
 लगा , उस समय मधमो दूधर आनेवाला मध उनकी नाकमें
 आने लगा ॥ ७ ॥ उस समय उनको वारुणीकी तृष्णा होने
 लगी, तब जैसे नशेरागका मुख दूधरे दिव (नशा न मिलने से)

प्रभवा तदा । शुशोप च सुखं तस्य मत्तस्येवापरेऽङ्गि ॥ ८ ॥
 स्फारितः स पुराट्टममृतप्राशनं विभुः । तृपितो गदिरान्वेपी
 ततस्तं तरुमैत्तन ॥ ९ ॥ तस्य प्राट्टपि फुल्लस्य यदंगो जल
 जोञ्जिक्तम् । तत्कोटरस्थं गदिरा संजायत मनोहरा ॥ १० ॥
 तां तु तृष्णाभिभूनात्मा विवन्वार्तं इतासकृत् । मोक्षच्च चलित-
 कारः समजायत स गभुः ॥ ११ ॥ तस्य मत्तस्य वदनं किञ्चि-
 च्चलितलोचनम् । घूर्णिताकारमभवच्चरत्कालेन्दुसप्रभम् १२
 कदम्बकोटरे जाना नाम्ना कादम्बरीति सा । रूपिणी वारुणी
 तत्र देवानाममृगारणी ॥ १३ ॥ कादम्बरीमदकलं विदिरवा
 कृणुपूर्वजम् । तिस्रस्त्रिदशानार्यस्तमुपतस्थुः मियंवदाः ॥ १४ ॥
 गदिरा रूपिणी भूत्वा कान्तिश्च शशिनः प्रिया । श्रीश्च देवी
 सूखने लगता है, तैसे ही उनका मुख सूखने लगा ॥ ८ ॥
 तब तो उन विभुको पहिले अमृतप्राशनका वृत्तान्त याद आगया
 तब तो वह तृपित होकर गदिराका अन्वेषण करनेकी इच्छासे
 उस वृत्तकी ओर देखने लगे ॥ ९ ॥ वहाँ ऋतुमें उस मफुल्ल
 वृत्त पर मेघोंसे जो जल बरस कर उसकी कोटरमें इकट्ठा होगया
 था उसकी मनोहर गदिरा बन गई थी ॥ १० ॥ उसको तृष्णा
 के कारण वे आर्तकी समान वारम्बार पीने लगे, तब तो मोह-
 वश उन मभुका आकार विन्तिस पुरुषकी समान होगया ॥ ११ ॥
 पदमत्त बलरामजीका मुख, कि जिसमेंके नेत्र कुछ २ चल रहे
 थे, वह घूमता हुआ मुख शरत् ऋतुके चन्द्रपाकी समान दीखने
 लगा ॥ १२ ॥ उस समय तहाँ कदम्बके कोटरमेंसे कादम्बरी
 नाम वाली मूर्तिमती वारुणी उत्पन्न होगई वह देवताओंके
 अमृतकी अरुणि थी ॥ १३ ॥ कृणुके पूर्वज भाईको कदम्ब
 के वृत्तकी गदिराके मदसे विरुद्ध जान कर मियवादिनी तीन
 देवस्त्रियें उनके पास आईं ॥ १४ ॥ उस समय गदिरा

वरिष्ठा स्त्री सैवमेवाम्बुजध्वजा ॥ १५ ॥ साजलिप्रग्रहा देवी
 रोहिण्येयमुपस्थिता । वारुण्य सहितं वावप्रमुनाञ्च मदविकलवम् १६
 वेलं जयस्व दैत्यानां बलदेव दिदीश्वर । अहं ते दयिता कान्ता
 वारुणी समुपस्थिता ॥ १७ ॥ त्नामेतान्निर्हितं श्रुत्वा शाश्वतं
 वडवामुखे । क्षीणपुण्येन वसुधां पर्येपि विमलानन ॥ १८ ॥
 पुण्यवकाञ्चुतिसेषु वैसरैर्पूजितं मया । अतिशुक्तेषु चात्तोभ्य
 दुग्धमन्वकवत्सु च ॥ १९ ॥ अहं कदम्बमालीना मेप्रकाले मुख
 प्रिया । तृपितं मार्गपाणा त्वां स्वेन रूपेण द्युदिता ॥ २० ॥
 चास्मि पूर्णं योगेन ययैवाप्रनगन्धने । मगीपं प्रेषिता पिना वरु
 णेन तत्रानत्र ॥ २१ ॥ सा ययैवार्णवगता तथैव वडवामुखे ।

(स्त्रीका) रूप धारण करके आई थी और चन्द्रमाकी प्रिया
 कान्ति और स्त्रियोंमें श्रेष्ठ श्रीदेवी जो कगलध्वजा थी (ये तीनों
 भूमिपती स्त्री वन उनके पास आई) १५ उस समय वारुणीके
 धारण मदविकल रोहिण्येयके पास वह देवी हाथ जोड़ कर खड़ी
 होगई और उनसे कहने लगी, कि-१६ हे स्वर्गके ईश्वर बलदेवगी !
 आप दैत्योंकी सेनाओंको जीतिये, मैं तुम्हारी प्यारी स्त्री
 वारुणी तुम्हारे पास आगई हूँ १७ आप शाश्वत व्यक्तिको
 वडवान्तिके समीप (पानाल) में अन्तर्गमन हुआ मुझे कर हे
 विमलानन ! आपको मैं क्षीणपुण्या स्त्रीकी समान हूँदती फिरती
 हूँ १८ मने मिले हुए पुण्योंके समूहमें, वासन्ती लताओंमें और
 पुष्पोंके गुच्छोंमें निवास किया है १९ मैं मुखप्रिया आप तृपित
 पुरुषको हूँदती हुई वर्षोंके समय अपने रूपको छिपा कर कदम्ब
 में चुप गई थी २० हे अनन ! अमृतमंगलकासा पूर्णयोग होने पर
 अर्थात् पूर्ण अंगों वाली होने पर पिता वरुणने मुझे आपके
 पास भेजा है २१ मैंने समुद्रमें अ.प वडवामुखमें मेरा उपभोग
 करने से बचने ही मैं चाहती हूँ शत्रुभी आप मेरा उपभोग करें,

तुमको भोक्तुमिन्द्रामि सम्पन्नस्त्वम् हि मे गुरुः-ना २२ ॥ न त्वा-
 ऽनन्त, परित्यज्ये भस्मिताऽपि त्वयानघ, । नाहं त्वया विना
 लोकान्नुत्सहे देव सेविनुम् ॥ २३ ॥ आदिपद्मं, च पद्माकं दिव्यं
 ध्रुवणभूषणम्, । कौण्डिन्यानि, च नीलानि समुद्रार्हाणि, विभ्रती २४
 मदिरानन्तरं, कान्तिः संकर्षणमुपस्थिता । मदेनागलितश्रोणी
 किञ्चिदाघूर्णितेक्षणः ॥ २५ ॥ श्लोवाच, प्रणयात् - कान्तिर्वन्द्या-
 ज्जलिपुटा सती । जगपूर्वेण योगेन सद्गितं वाक्यमुत्तरीत् ॥ २६ ॥
 अहं चन्द्रादपि गुरुं सहस्रशिरसं, प्रभुम् । स्वैर्गुणैरनुरक्ता त्वां
 यथैव मदिरा तथा ॥ २७ ॥ श्रीश्च पद्मालया, देवी, विधेया वैष्णवो-
 रसि । रोहिण्येयोरसि शुभा मालेवामलता, गता- ॥ २८ ॥ सा
 मालाममलाः शुभ वलस्पोरसि दंशिताः ॥ पद्मास्या, पद्मदस्ता वै

पर्यांकि मैं आपको माननीय गुरु समझती हूँ २२ हे निष्पाप ।
 अनन्त ॥ तुम्हारे तिरस्कार करने पर भी मैं तुमको नहीं छोड़ूँगी,
 हे देव । आपके विना लोकोंकी सेवा करनेवा मुझे उत्साह नहीं
 होता है २३ मैं कान्तोंके दिव्य आभूषण आदिपद्म पद्मांक आर
 समुद्रके योग्य नीले रेशमी वस्त्रोंको धारण करने पर भी (दूसरों
 को नहीं चाहती) २४ मदिराके अनन्तर मदके कारण हिलती
 हुई श्रोणि वाली और कुट्ट २ घूमती हुई आग्यों वाली कान्ति
 संकर्षणके पास आई २५ उस समय कान्ति, प्रणयके कारण
 हाथ जोड़ कर मुस्कुराती हुई जय २ करके कहने लगी, २६ कि-
 जैसे मदिरा आपसे प्रेम करती है इसी प्रकार आपके गुणोंके
 कारण मैं सहस्र किरणों वाले चन्द्रमासे भी अधिक आपको
 बड़ा समझती हूँ २७ पद्मालिया वैष्णव वक्षःस्थलमें विधेय शुभा
 श्री भी रोहिण्येयके वक्षःस्थलमें मालाकी समान निर्मल होकर
 चली गई २८ उस पद्मदस्ता पद्ममुखीने वस्त्रभूषणादिसे सुस-
 ज्जित हो निर्मल मालाको लेकर बलदेवजीके हृदयके पास जा

संकर्षणमगात्रीत् ॥ २६ ॥ राम रामाभिरामस्त्वं वारुण्या
समलंकृतः । कान्त्या गया च देवेश सद्गतश्चन्द्रमा यथा ॥ ३० ॥
इयं च सा मया मौलिः गोद्वृता वरुणालयात् । मूर्ध्नि शीर्षे
सहस्रस्य या ते भानुरिवावधौ ॥ ३१ ॥ जातरूपमयं चैकं कुण्डलं
वज्रभूषितम् । आदिपद्मं च पद्मानं दिव्यश्रवणभूषणम् ॥ ३२ ॥
कौशेयानि च नीलानि समुद्रार्हाणि भावतः । हारं च पीनतरुणं
समुद्राभ्यन्तरोपिनम् ॥ ३३ ॥ देवेमां प्रतिगृह्णीष्व पौराणी
भूषणक्रियाम् । समयन्ते महाबाहो भूषणानामर्णक्रिया ॥ ३४ ॥
संशुभ्य तमलंकारं तारश्च तिस्रः सुरस्त्रियः । शुशुभे बलदेवो
हि शारदेन्दुसमप्रभः ॥ ३५ ॥ स समागम्य कृष्णेन जल-
जाम्भोदवर्णसा । मुदं परमिकां लेभे ग्रहयुक्तः शशी यथा ॥ ३६ ॥

उनमे कहा, कि-२६ हे स्त्रियोंको आनन्द देने वाले राम ! तुम
वारुणीसे अलंकृत हो रहे हो और हे देवेश ! चन्द्रमाकी समान
सुभ्रमे और कान्तिसे भी युक्त होरहे हो ॥ ३० ॥ जो आपके
सहस्र फनों पर सूर्यकी समान दमकता था उस मुकुटने मैं
वरुणालयसे ले आई हूँ ॥ ३१ ॥ आप रत्नोंसे विभूषित एक
कुण्डलने और कानोंके दिव्य भूषण आदिपद्म पद्मानके और
उन्धानुसार नीले नीले रेशमी वस्त्रोंने और समुद्रके उदरमें
वर्तमान मोटे और तरल हारसे आदरके साथ ग्रहण करिये,
हे देव ! आप अपनी इस गाचीन अर्चकरण सामग्रीके ग्रहण
करिये, रत्नोंके-हे महाशुभ ! यह आपके भूषणोंसे अर्चकृत
होनेका समय है ॥ ३२-३४ ॥ उन अलंकारोंके और उन
देवस्त्रियोंको ग्रहण कर बलदेवजी शरद्व शत्रुके चन्द्रमाकी
समान प्रभासे शोभा पाने लगे ॥ ३५ ॥ तदनन्तर वह मेघकी
समान कान्तिवाले श्रीकृष्णसे मिल कर ग्रहयुक्त चन्द्रमाकी
समान परम प्रमन्न हुए ॥ ३६ ॥ वे घरकी समान तहाँ पर इस

ताभ्यामुभाभ्यां सत्त्वापे वर्तमाने गृहे यथा । वींनतौपस्ततोऽन्वान
 मतिचक्राम वेगतः ॥ ३७ ॥ संग्रामयुक्तरतेनस्वी दैत्यपहरणां-
 कितः । देवानां जयश्लाघी दिव्यसूनुलेपनः ॥ ३८ ॥ सुप्तस्य
 शपने दिव्ये क्षीरोदे बहूणानये । विष्णोः किरीटं दैत्येन हृतं
 वीरोचनेन वै ॥ ३९ ॥ तदर्थंभूतेन संग्रामः कृतो गुर्वर्थगोत्रसा ।
 किरीटार्थं समुद्रस्य मध्ये दैत्यगणैः सह ॥ ४० ॥ मोक्षयित्वा
 किरीटं तु वीष्णुश्च पतताम्बरः । व्यत्यक्रामत वेगेन गगनं देवता-
 लगम् ॥ ४१ ॥ म ददर्श गुरुं शैले विष्णुं कार्यान्तरागतम् ।
 तेन क्रोडावलम्बेन किरीटेन विराजिता ४२ स दृष्ट्वा मानुषं विष्णुं
 शैलराजशिरोगतम् ॥ प्रकाशचेष्टानिर्मुक्तं विमौलिमिव मानुषम् ४३
 अभिज्ञत्तस्य भावानां गहत्मान् पतताम्बरः । चित्तोप खड्गतो

प्रकार वार्तचीत कर रहे थे उस समय गरुडजी उनके पास
 वेगसे आगए ॥ ३७ ॥ वे संग्रामयुक्त थे अर्थात् संग्रामके समय
 आया करते थे और वे तेजस्वी दैत्योंके पहारोंसे चिन्हित थे
 और वह देवताओंकी जयकी प्रशंसा करते रहते थे और दिव्य
 चन्दन तथा माला पहारा करते थे ॥ ३८ ॥ भगवान् विष्णु जब
 दिव्य क्षीरसमुद्रमें शेषन कर रहे थे तब वीरोचन राक्षसने
 उनके किरीटको हरलिया था ॥ ३९ ॥ तब अपने गुरु
 (बड़े) के किरीटके लिये गरुडने समुद्रके मध्यमें राक्षसोंके
 साथ बलपूर्वक संग्राम किया था ४० पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुड विष्णु
 के किरीटकी छुड़ा कर देवताओंके आलय आकाशमें वेगसे
 उड़े ४१ उस समय उनकी गोक्षीमें लटकना हुआ किरीट उनको
 शोभा दे रहा था तब उन्होंने अपने गुरु विष्णुके कार्यान्तरके
 कारण पर्वत पर विराजमान देखा ४२ तब उन्होंने विष्णुके
 मनुष्य बन शैलराजके शिखर पर बैठ कर मुकुट रहित साधारण
 मनुष्यकी समान (मुकुटके) प्रकाशकी चेष्टासे मुक्त देखा ४३

मौलि विष्णोः शिरसि हृष्टवत् ४४ उपेन्द्रमूर्ध्नि सा मौलिरपिनद्धा
इवापवत् । शिरसः स्थाननिर्मुक्ता कृष्ण चैवान्वशो भवत् । यथैव
मेरुशिखरे भानुर्ष्वग्निने - यथा ४५. दौनेतेष्टमयोगेण विदित्वा
मौलिपागतम् । कृष्णः प्रहृष्टवद्गो रामं वचनमब्रवीत् ॥ ४६ ॥
त्वरते खलु कार्यार्थो देवतानां न संशयः । यथेवमावयोः शीले
संग्रामे रचना कृता ॥ ४७ ॥ नैरोचनेन सुप्तस्य मम मौलिर्महो-
दगौ । शकस्य सद्दशंख्यं दिव्यमास्वाय - सागरात् ॥ ४८ ॥
ग्राह्ररूपेण योनीं आनीदोऽसौ गरुत्मता । यमादिशयनान्मौलि
हृत्वा तिस्रो गरुत्मता ॥ ४९ ॥ सुव्यक्तं सन्निकृष्टः स जरा-
सन्धो नराधिपः । लक्ष्यन्ते हि ध्वजाग्राणि स्थानां वात-

उस सपन पत्तिगोमें श्रेष्ठ विष्णुके भावोंको जानने वाले मेरुइने
विष्णुके शिर पर प्रसन्न होकर आकाशसे मुकुट गिरा दिया ४४
इन्द्रके छेदे भाईके मस्तक पर वह मुकुट पहिरानेकी समान गिर
पड़ा और शिरके स्थानमें छूट कर कृष्णको सुशोभित करने लगा
उस समय श्रीकृष्ण मेरुपर्वतके शिखर पर दुपहरीमें चिराजते
हुए मूर्धकी समान शोभा पाने लगे ४५ गरुड़जीके प्रयोगसे मुकुट
को आपा हुआ देख कर कृष्ण अपने मुखको प्रसन्न करके
चलामगीठ कहने लगे ४६ इस पर्वत पर जिस प्रकार हम दोनों
के लिये संग्रामकी रचना हुई है उसने प्रतीत होना है कि-
देवताओंका कार्य त्वरा-कर रहा है ४७ मैं समुद्रमें सो रहा था
उस समय नैरोचने शकका दिव्य रूपाधारण कर मेरे मुकुटको
(चुग लिया था) ४८ (फिर) ग्राहका रूप धारण कर वह
उमके लिये जा रहा था उसने गरुड़जी ले आप-थे, इस प्रकार
मेरे सर्पशय्या पर जाने पर मेरे मुकुटको छीन कर गरुड़जीने
फेंका है ४९ राजा जगसंध साफ हीपासमें दीख रहा है, क्योंकि-
वायुकी समान वेग वाले राजाओंके रथोंके ध्वजाके अग्रभाग

रंहसाम् ॥ ५० ॥ एतानि विजिगीषूणां शशिरन्धानि भूभृताम् ।
 छत्राण्यार्यं विजराजने दंशितानि पित्रानि च ॥ ५१ ॥
 अहो नृपयोद्ग्रा विमलाश्चत्रपंक्तयः । अभिवर्तन्ति नः शुभ्रा
 यथा स्वे हंसपंक्तयः ॥ ५२ ॥ अहो द्यौर्विमलाभानां शस्त्राणां
 विपलानना । प्रभा भास्करभामिथा चरन्तीव दिशो दश ५३
 एतानि नूनं समरे पार्थिवैरायुधानि च । क्षिप्तानि विनशिष्यन्ति
 मयि सर्वाणि संयुगे ॥ ५४ ॥ काले खलु नृपः प्राप्तो जरासन्धो
 गहीपतिः । आवयोर्धुद्वनिकपः प्रथमः समरात्तिथिः ॥ ५५ ॥ अर्षे
 तिष्ठोव सहितौ न खल्वनागते नृपे । युद्धारम्भः प्रयोक्तव्यो बलं
 तावद्विमृश्यताम् ॥ ५६ ॥ एवमुक्त्वा ततः कृष्णः स्वस्थः संग्राम
 लालसः । जरासन्धवधं प्रेषुश्चकार बलदर्शनम् ॥ ५७ ॥ वीक्ष्य-

दिखाई देरहे है ॥ ५० ॥ हे आर्य ! ये जीतने वाले राजाओंके
 सुसज्जित भिय छत्र चन्द्रपाकी संगान विराज रहे हैं ॥ ५१ ॥
 जैसे आकाशमें हंसोंकी पंक्ति दीखती है इसी प्रकार राजाओंके
 उद्गम रथोंकी शुभ्र चत्रपंक्तियें हगारी ओरको धारही है ॥ ५२ ॥
 आकाशका मुख विमल आभा वाले शस्त्रोंकी प्रभासे उज्ज्वल
 होरहा है और उनकी प्रभा सूर्यकी प्रभासे मिल कर दशों दिशा-
 ओमें फिरसी रही है ॥ ५३ ॥ ये राजे समरमें जिन आयुधोंको
 मेरे ऊपर फैकैगे वे सब आयुध नष्ट होजावेंगे ॥ ५४ ॥ यह
 राजा जरासन्ध उचित समय पर ही आया है, यह हम दोनोंकी
 समरकी कसौटी होगा और समरका प्रथम अतिथि होगा ५५
 हे आर्य ! हम दोनोंको इकट्ठे होकर खड़ा होना चाहिये और
 इस राजाके आनेसे पहिले ही युद्धका सापान ठीक करना चाहिये,
 पहिले सेनाकी देखभाल करना चाहिये ॥ ५६ ॥ इस प्रकार
 श्रीकृष्णने स्वस्थतासे बातचीत की, फिर उन्होंने संग्रामकी लाल-
 सासे जरासन्धका वध चाहते २ सेनाको देखा ॥ ५७ ॥ अच्युत

पाणश्च तान् सर्वान् नृपान्यदुवरोऽव्ययः । आत्मानमात्मनोवाच
यत्पूर्वं दिवि मन्त्रितम् ॥ ५८ ॥ इमे, ते पृथिवीपालाः, पार्थिवे
वर्त्मनि स्थिताः । ये विनाशं गणिष्यन्ति शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ५६
प्रोन्नितान् खल्विमान् मन्ये मृत्युना नृपसत्तमान् । स्वर्गगामीनि
चाप्येषां वपुंसि प्रवक्ताशिशरे ॥ ६० ॥ स्थाने भारपरिश्रान्ता
वसुधेयं दिवं गता । एषां नृपतिसिंहानां बलौघैरभिपीडिता ६१
अल्पेन खलु कालेन विपिक्तं पृथिवीतलम् । भविष्यति नरेन्द्रौ-
घैराकीर्णं च नभस्तलम् ॥ ६२ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि जरासन्ध-
गमनं नामैकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

वैशम्पायन उवाच । जरासन्धस्ततः प्राप्तो नृपः सर्वमही-
न्तिताम् । नराधिपैर्वलयुतैरनुयातो महाश्रुतिः ॥ १ ॥ व्यायतो-
दग्रतुरगैर्विस्पृष्टार्थसमाहितैः । रथैः-संग्रामिकैर्युक्तरसद्गतिभिः

गदुवरने उन सब राजाओंको देख कर अपने चित्तमें स्वर्गकी
मंत्रणाका विचार किया ५८ ये राजे मृत्युमार्गमें स्थित होगए है
और शास्त्रविहित कर्मसे इनका विनाश होजावेगा ॥ ५६ ॥ मैं
इन राजसत्तमोंको मृत्युसे ग्रसित समझना हूँ और इनके स्वर्ग-
गागी शरीर भी मरुाशित होरहे है ॥-६० ॥ इन राजसिंहोंकी
सेनाओंके भारसे पीड़ित होकर पृथ्वीने स्वर्गमें जाकर उचितहो
किया था ॥ ६१ ॥ अब थोड़ेही समयमें पृथ्वीमण्डल तो शुन्य
होजावेगा और नभस्तल राजाओंसे बघास होजावेगा ॥ ६२ ॥
इकनालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४१ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-इसके उपरान्त सकल राजाओंसे
विरा हुआ महाश्रुति राजा जरासंध राजाओंके बलमे विर कर
उनके पीछे पहुँच गया १ उसके साथ अरवशास्त्रकोविदोंके
मिथ्यापे हुए चौड़े और बलवान् घोड़े थे वे संग्रामकी सामग्रीसे

क्वचित् ॥ २ ॥ हेमकूर्मैर्महाघण्टैर्वारणैर्वारिदोपमैः । महामात्रो
 त्तमारुहैः कल्पिनै रणवल्गितैः ॥ ३ ॥ सारुहैः सादिभिर्युक्तैः
 मेखमारणैः प्रवल्गितैः । वाजिनिर्वायुसंकारैः सर्वाद्भिरिव
 पत्रिभिः ॥ ४ ॥ खड्गचर्मरत्नलोदग्रैः पत्रिभिर्वल्गितां चरैः । सदस्र
 संख्यैर्निर्मुक्तैरुत्पत्तिरिवोरगैः ॥ ५ ॥ एवं चतुर्विधैः सैन्यैः
 प्रचलद्भिरिवाम्बुदैः । नपोऽपि गतो बलवान् जरासन्धो धृत-
 व्रतः ॥ ६ ॥ स रथैर्नेमिघोषैश्च गजैश्च मदसिञ्जितैः । ह्येपद्भि-
 र्थापि तुरगैः चवेडितोऽथैश्च पत्तिभिः ॥ ७ ॥ सन्नादयन् दिशः सर्वाः
 सर्वाश्चापि गुहाशयान् । स राजा सागराकारः ससैन्यः प्रत्य-
 दृश्यत ॥ ८ ॥ तद्बलं पृथिवीशानां हृष्टयोधजनाकुलम् । चवेडिता
 भरे ह्युप रथोमं जुग रहे थे और कहीं पर अलग २ चल रहे थे २
 और । उसके साथमें सुवर्णकी अंधारी वाले बड़े २ घण्टों वाले
 मेघोंकी समान हाथी थे, उन पर हाथीचान् बँटे हुए थे और वे
 रणके समथकी दहाड़ें दहाड़ रहे थे ३ और उसके साथके घोड़े
 घुडसवारोंको लेकर पृथ्वीको कुरेदते हुए और हिनहिनाते हुए
 चल रहे थे और वे वायुकी समान घोड़े उड़ते हुए पत्तियोंकी
 समान चल रहे थे ४ और उसके साथमें ढाल तलवारधारी
 बलमें उदग्र पैदलभी चल रहे थे वे अपनी गुंजारसे आकाशको
 गुंजार रहे थे और बह सहस्रोंकी संख्यामें उड़ने सपोंकी समान
 चले जा रहे थे ५ इस प्रकार चलते हुए मेरोंकी समान चार
 प्रकारकी सेनाओंसे घिरा हुआ बलवान् राजा जरासन्ध चल
 आरहा था ६ वह नेमिका घोष करने वाले रथोंसे और मदन
 चिंघाड़ते हुए हाथियोंसे और हिनहिनाते हुए घोड़ोंसे और बाँस
 फटकारते हुए सैनिकोंसे सब दिशाओंको और सकल गुहाशयों
 को गुंजारता हुआ समुद्राकार राजा जरासन्ध सेनाके साथ
 दिग्बाई दिया ७-८ हुए योधाओंसे सहुन और बाँस फटकारने

स्फोटितरवं मेवसैन्यमिवाद्यभौ ॥ ६ ॥ रथैः पवनसम्पातैर्गजैश्च
जलदोपमैः । तुरगैश्च सिताभ्राभैः पत्तिभिश्चापि दंशितैः १०
व्यामिश्रं तद्भलं भाति पत्तिद्विपरथाकुलम् । घर्मान्ते सागरगतं
यथाऽभ्रपटलं तथा ॥ ११ ॥ सबलास्ते महीपाला जरासन्ध-
पुरोगमाः । परिवार्य गिरिं सर्वे निवेशायोपचक्रुः ॥ १२ ॥
वर्षा तस्य निविष्टस्य वलथ्रीः शिविरस्य वै । शुक्लपर्वणि
पूर्णस्य यथा रूपं महोदधेः ॥ १३ ॥ वीतरात्रे ततः काले नृपास्ते
कृतकौतुकाः । अरोहणार्थं शैलस्य समेता युद्धलालसाः ॥ १४ ॥
सगत्रापीकृताः सर्वे गिरिप्रस्थेषु ते नृपाः । निविष्टा मन्त्रया-
मासृष्टुद्धकालकुतूहलाः ॥ १५ ॥ एषां तु तुमुलः शब्दः शुश्रुवे
पृथिवीक्षिताम् । युगान्ते भिद्यमानानां सागराणां यथा स्वनः १६

और भुजा थपकानेके रव घाला वह राजाओंका सेनादल मेघ-
सेनाकी समान शोभा पाने लगा ६ पवनकी समान चलने वाले
रथोंसे और मेघोंकी समान हाथियोंसे रवेत वादलोंकी आभाकी
समान आभा वाले घोड़ोंमे और कवच धारण करने वाले
पैदलोंसे घोलमेल, व्याकुल पैदल और घोड़े तथा रथ वाला वह
सेनादल वर्षाऋतुमें समुद्रमेंसे उठने हुए वादलोंकी घटाकी समान
दीख रहा था १०-११ वे जरासंध आदि राजे अपनी अपनी
सेनाओंसे उस पर्वतको घेर कर तहाँ झावनी डालनेके लिये खड़े
होगए १२ जैसे शुक्रपत्तकी पूर्णिमाके दिन समुद्रका रूप होता है
इसी प्रकार उस सेनाके शिविरकी शोभा होरही थी १३ तदनन्तर
रात्रि बीतने पर वे राजे मांगलिक कार्य करके युद्धकरनेकी
लालसासे पर्वत पर चढनेके लिये एकत्रित होने लगे १४ युद्धके
समय कुतूहल होने पर वे सब गिरिप्रस्थमें इक्ठे हो बैठ कर
मंत्रणा करने लगे १५ जैसे प्रलयकालमें उफनते हुए समुद्रोंका
शब्द होता है इसी प्रकार राजाओंका तुमुल शब्द सुनाई आने

तेषां सकञ्चुकोष्णीपाः स्थविरो वेत्रपाणयः । चेरुर्मा शब्द इत्येवं
 ब्रुवन्तो राजशासनात् ॥ १७ ॥ तस्य रूपं बलस्यासीन्नः शब्द-
 स्तिमितस्य वै । लीनमीनभुजङ्गस्य निःशब्दस्य पयोदधेः । १८ ॥
 तस्मिन् स्मितनिःशब्दे योगादिव महार्णवे । जरासन्धो बृहदाक्यं
 बृहस्पतिरिवाद्दे ॥ १९ ॥ शीघ्रं समभिवर्तन्तां बलानीह मही-
 क्षिताम् । सर्वतः पर्वतत्त्रायं बलानैः परिवार्यताम् ॥ २० ॥
 अश्मयन्नायि युज्यन्तां क्षेपणीयश्च मुद्गराः । ऊर्ध्वं चापि प्रवा-
 हन्तां प्रासा वै तोमराणि च ॥ २१ ॥ ऊर्ध्वं प्रक्षेपणार्थाय दृढानि
 च लघूनि च । शस्त्रपातवित्रातानि क्रियन्तामाशु शिल्पिभिः २२
 शूराणां युद्धयमानानां प्रमत्तानां परस्परम् । यथा नभपतिः प्राह
 तथा शीघ्रं विधीयताम् ॥ २३ ॥ दार्यतामेव टंकोमैः खनिजैश्च
 नगोत्तमः । नृपाश्च युद्धदुर्गज्ञा त्रिन्यस्यन्तामदूरतः ॥ २४ ॥

लगा १६ उन राजाओंके वृद्ध चपरासी राजाज्ञा मिलने पर बर्दी
 पहिन और पगड़ी बाँध हाथमें बेंत लेकर चुप रहो चुप रहो कहने
 लगे १७ तब तो जैसे मगर मच्छ और सर्पोंके लीन होने पर
 समुद्र शान्त दीखता है इसी प्रकार वह सेना चुप होने पर शान्त
 दीखने लगी १८ जैसे समुद्र स्तिमित होजाता है इसी प्रकार
 सेनादलके निःशब्द होजाने पर जरासन्धने बृहस्पतिकी समान
 महत्त्वयुक्त वचन कहा, कि-१९ राजाओंकी सेनाएँ शीघ्रही
 उद्यत होजायें और इस पर्वतको सेनादलोंसे घेरलें ॥ २० ॥
 अश्मयन्न क्षेपणीय और मुद्गर ठीक करो और प्रास तथा तोमरों
 को ऊपरसे फेंके ॥ २१ ॥ शिल्पीयुरुप शस्त्रोंका पतन रोकनेके
 लिये ऊपरको फेंकनेकी दृढ़ परन्तु हलकी, वस्तुएँ तयार करें २२
 यह सब मत्त होकर परस्पर युद्ध करने वाले योधाओंको दिये
 जावें, राजा जिस प्रकार कह रहे हैं, सब फुर्तीसे वैसा ही करो २३
 इस उत्तम पहाड़को कुदाल और फावड़ोंसे विदीर्ण कर डालो

अथ प्रभृति सैर्न्यमै गिरिरोचः पवर्त्यताम् । यावदेतौ पातयामो
चसुदेवसुतायुगौ ॥ २५ ॥ अचलोऽयं शिलायोनिः क्रियतां
निरचलाण्डजः । आकाशमपि वाणोर्नैर्निःसम्पातं विधीयताम्
मयाऽनुसृष्टास्तिष्ठन्तु गिरिभूमिषु भूमिषाः । तेषु तेष्ववकाशेषु
शीघ्रमारुहतां गिरिः ॥ २७ ॥ मद्रः कल्किगाधिपतिश्चेकितानश्च
वाल्हिकः । काश्मीरराजो गोनर्दः करुपाधिपतिस्तथा ॥ २८ ॥
द्रुमः किंपुरुषश्चैव पार्वतीयाश्च मालवाः । पर्वतस्यापरं पार्श्वं
क्षिप्रमारोह्यन्त्वमीरुषोरवो वेणुदारिश्च वैदर्भः सोमकस्तथा ।
रुक्मी च भोजाधिपतिः सूर्याक्षरश्चैव मालवः ३० पश्चालाधि-
पतिश्चैव द्रुपदश्च नराधिपः । विदानुविन्दावावन्त्यौ दन्त
वक्रश्च वीर्गवान् ॥ ३१ ॥ द्यागलिः पुरमित्रश्च दरदश्च मही-
पतिः । कौशाम्ब्यो मालवश्चैव शतधन्वा विदूरथः ॥ ३२ ॥
भूरिश्रवास्त्रिगर्तश्च वाणः-पञ्चनदस्तथा । उत्तरं पर्वतादेशमेने

उक्त समय युद्धदुर्गको जानने वाले राजे भी इसके पास ही खड़े
रहें २४ जब तक हम चसुदेवके इन दोनों पुत्रोंको गिरावे तब
तक मेरी सेनाएँ पहाड़को घेरे खड़ी रहें २५ इस शिलाश्रोत्रके
उत्पादक अचलके पक्षियोंके निरचल कर दो, और आकाशको भी
वाणोंसे छाकर ऐसा करदो, इसमें उड़ा न जा सके २६ मेरे आज्ञा
दिये द्रुप राजे पहाड़की भूमियोंमें डट जाँय और स्थान २ पर
शीघ्र ही पहाड़ पर चढ़ें २७ मद्र कल्किगाधिपति चेकितान वाल्हीक
काश्मीरराज गोनर्द करुपाधिपति द्रुम और पहाड़ी तथा माल-
वीय, ये सब पहाड़के अपर पार्श्वपर चढ़ें ॥ २८ ॥ २९ ॥
पारव वेणुदारि वैदर्भ सोमक भोजाधिपति रुक्मी सूर्याक्ष मालव
पश्चालाधिपति राजा द्रुपद, अवनति देशी विन्द अनुविन्द वीर्गवान्
दन्तवक्र द्यागलि पुरुमित्र राजा दरद कौशाम्ब्य मालव शतधन्वा
विदूरथ भूरिश्रवा त्रिगर्त वाण पञ्चनद ये रत्नोंकी समान गौरव

दुर्गसहा नृपाः । आरोहन्तु विमर्दन्तो वज्रप्रतिमगौरवाः ॥३३॥
 उलूकः कैतवेयश्च वीरश्चाशुमतः सुतः एकलव्यो हृदारश्च
 क्षत्रधर्मा जयद्रथः ॥ ३४ ॥ उत्तमौजास्तथा शाब्वः कैरलेयश्च
 कैशिकः । वैदिशो वामदेवश्च सुकेतश्चापि वीर्यवान् ॥ ३५ ॥
 पूर्वपर्वतनिर्व्यूहमेतेष्वायत्तमस्तु नः । विदारयन्तो घावन्तु वाता
 इव बलाहकान् ॥ ३६ ॥ अहं च दरदर्शैव चेदिराजश्च वीर्य-
 वान् । दक्षिणं शैलनिचयं दारयिष्याम दंशिताः ॥ ३७ ॥ एव-
 मेव गिरिः क्षिप्रं समन्ताद्दृष्टितो वनैः । वज्रपातप्रतिमं मामोतु
 तुमुलां भयम् ॥ ३८ ॥ गदिनो धै गदाभिश्च परिधैः परिघा
 युधाः । अपरे विविधैः शस्त्रैर्दारयन्तु नगोत्तमम् ॥ ३९ ॥ एव
 भूमिधरोऽप्यैव विषमोच्चशिलान्वितः । कार्ष्णी भूमिसमः सर्वो
 भवद्भिर्बभूवुधाधिपैः ॥४०॥ जरासन्धश्चः श्रुत्वा पार्थिवा राज-

वाले दुर्गसह राजे पहाड़का मर्दन करते हुए उत्तरकी ओर चढ़े
 उलूक कैतवेय अशुमान्वा पुत्र, वीर एकलव्य हृदारश्च क्षत्रधर्मा
 जयद्रथ उत्तमौजा शाब्व कैरलेय कैशिक वैदिश वामदेव वीर्यवान्
 सुकेतु हमारे पर्वतका पूर्वकी ओरका व्यूह इनके अधीन रहे,
 जैसे वायु मेघोंको तित्तर वित्तर करते दौड़ते हैं, ऐसे ही यह राजे
 (शत्रुओंको) विदीर्ण करते हुए चढ़े ३४-३६ में दरद और
 वीर्यवान् चेदिराज ये सब कवचोंको धारण कर पहाड़के दक्षिण
 के ओरके पत्थरोंको ढानें ३७ इस प्रकार इस पहाड़को फौजोंसे
 चारों ओरसे घेर कर इस पर वज्रपातकी समान भगंकर भय
 डालना चाहिये ३८ गदाधारी पुरुष गदाधर्मै परिघसे लडने
 वाले परिघोंसे और दूसरे योग अनेक प्रकारके शस्त्रोंसे इस
 गिरिश्रेष्ठको ढाने ३९ आप सब राजे इस ऊँची शिला वाले
 पहाड़को समतलभूमि वाला बना दें ४० जरासन्धके वधको
 मन कर राजशासनसे राजाओंने गोमन्तपहाड़को ऐसे घेर लिया,

शासनात् । गोमन्तः चेष्टयामासुः सोगरः पृथिवीमिव ॥ ४१ ॥
 उवाच राजा चेदीनां देवानां मघवानिव । किं ते युद्धेन दुर्गे-
 ऽस्मिन् गोमन्ते च नगोत्तमे ॥ ४२ ॥ । दुरारोहश्च शिखरे प्राशु-
 पादपकण्डके । काष्ठैस्त्वृणैश्च बहुभिः परिवार्य समन्ततः ४३
 अथैव दीप्यतां क्षिप्रमलमन्येन कर्मणा ॥ क्षत्रियाः सुकुमारां हिरण्यो
 सायकयोधिनः ॥ ४४ ॥ नियुक्ताः पर्वते दुर्गे । नियोक्तुं पाद-
 योधिनः । न नामपतिवन्द्येन न चादस्कन्दकर्मणा ॥ ४५ ॥ शक्यं
 एष गिरिस्तात देवैरप्यवमर्दितुम् । दुर्गयुद्धे क्रमः श्रेयान् रौप्ययुद्धेन
 पार्थिवाः ॥ ४६ ॥ भक्तोदकैर्धनैः क्षीणाः पात्यन्ते गिरिसं-
 श्रिताः । वयं बहव इत्येवं न तेषु निपुणो नयः ॥ ४७ ॥ पादवौ
 नावमन्तव्यौ द्वावप्येवौ रणे स्थितौ । अविज्ञातबलावेतौ श्रूयते देव-

जैसे समुद्रसे पृथ्वी घिरी हुई है ४१. उस समय देवताओंमें इंद्र
 की सगानं चेदिसजने कहा, कि-इस दुर्गम पहाड़ोंमें श्रेष्ठ गोमन्तं
 पर युद्ध करनेमें क्या लाभ है? ४२ इसके शिखरों पर कठिनता
 से चढ़ा जा सकेगा और इसमें बड़े-बड़े काठेदार वृक्ष हैं
 (मेरी समझमें तो) इसके चारों ओर बहुतसे काठे कवाड़ धर
 इसमें आज ही शीघ्रतासे अग्नि लगा देनी चाहिये और दूसरे
 कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्षत्रिय सुकुमार हैं वे तो ज्ञान-
 युद्ध कर सकते हैं ४३-४४ इनको आप पहाड़युद्धमें प्रवृत्त कर
 रहे हैं, इनको तो (स्थलके) दुर्ग-युद्धमें पैदल लड़ाईना खचित
 है इस पहाड़को नाममात्रके रोकनेसे वा इसके ऊपर चढ़नेसे तो
 देवता भी इस पर्वतका मर्दन नहीं कर सकते, हे राजाओं ! दुर्ग-
 युद्धमें रौप्ययुद्धका क्रम कल्याण करता है, पहाड़का आश्रय लेकर
 रहने वाले पुरुषोंका भोजनकी सामग्री जल और ईंधन क्षीण
 होने पर ही पवन होसकता है, हम बहुत हैं (पहाड़ी छोड़े हैं)
 उनके संघर्षमें (इस प्रकार विचारना) उत्तम नीति नहीं है ४५-४७

सम्पितौ ॥ ४८ ॥ कर्मभिस्त्वमरो विद्मो बालानतिबलान्दिवौ ।
दुष्कराणीह।कर्माणि कृतवन्तौ यदुत्तमौ ॥ ४९ ॥ शुष्ककाष्ठै
स्तुणैर्वेष्ट्य सर्वतः पर्वतो ह्यम् । अग्निना दीपयिष्यामो दह्येन
गतचेतनौ ॥ ५० ॥ यदि चेन्निष्कमिष्येते दह्येमानावितोन्तिके ।
समेत्य पातयिष्यामस्त्यक्ष्यतो जीवितं ततः ॥ ५१ ॥ वाक्यमेतत्तु
रुच्ये सयत्नानां महीक्षिताम् । यदुक्तं चेदिराजेन नृपाणां हित-
शंसिना ॥ ५२ ॥ ततः काष्ठैस्तुणैर्विशैः शुष्कशाखैश्च पादपैः ।
उपादीप्यत शैलेन्द्रः सूर्यपादैरिधाम्बुदः ॥ ५३ ॥ ददुस्ते सर्व-
तस्तूर्णं पावकं तत्र पार्थिवाः । यथोद्देशं यथावातं शैलस्य लघु-
विक्रमाः ॥ ५४ ॥ स वायुदीपितोवन्दिहिरूपपात समन्ततः । स

इन रखमें वर्तमान दोनों यादवोंने तुच्छ नहीं समझना चाहिये,
क्योंकि इनके बलका पता नहीं लगता, और यह देवताओंकी
समान सुने जाते हैं ॥ ४८ ॥ इनके कर्माँसे हम इनको देवता
समझते हैं, ये दोनों बालक अतिबली हैं, इन यदुओंमें श्रेष्ठ पुरु
पोंने इस-संसारमें बड़े २ दुष्कर कर्म किये हैं ॥ ४९ ॥ सूखे
काष्ठ और तिनकोंसे इस पर्वतको चारों ओरसे घेर कर अग्निसे
भस्म करना चाहिये तब वे मूर्च्छित होकर भस्म होजावेंगे ॥ ५० ॥
यदि वह जलनेसे (डर कर) निकलेंगे तो हम एकत्रिन हो
उनको समीपमें ही गिरादेंगे इस प्रकार वे अपने प्राणोंको त्याग
देंगे ॥ ५१ ॥ राजाओंके हितकी बात कहने वाले चेदिराजने
जो बात कही, वह बात सेनाओं सहित सब राजाओंकी अच्छी
लगी ॥ ५२ ॥ तब तो जैसे सूर्यकी किरणें पड़ रही हों, इस
प्रकार काष्ठ तिनके बाँस और सूखी ढालों वाले वृत्तोंसे वह पर्वत
जलने लगा ॥ ५३ ॥ तब तो कुर्तासे पराक्रम करने वाले राजाओं
ने स्थान और वायुके अनुसार उस पर्वतके चारों ओर शीघ्रता
से आग लगा दी ॥ ५४ ॥ उस समय वायुसे मदीस हुआ

धूमज्वालमालाभिर्भाभिः खगिव शोभयन् ॥ ५५ ॥ सोऽनलः
 पवनायस्तः काष्ठसंचपमूलवान् । ददाह शैलं श्रीमन्तं गोमन्तं
 कान्तपादपम् ॥ ५६ ॥ स दह्यमानः शैलेन्द्रो, सुमोच विपुलाः
 शिलाः । प्रतशः शनधा, भूत्वा महोल्काकारदर्शनाः ॥ ५७ ॥ सः
 चित्रगान्तुः शैलेन्द्रो भागिर्भानुरिवाम्बुदम् । आलिपतीव विधि-
 वत् सपन्तादर्चिरुद्धतः ॥ ५८ ॥ धातुभिः पश्यमानैश्च ज्वलद्भि-
 श्चैव, पादुपैः । उद्भ्रान्तश्चापदो रीति तुद्यमानः इवाद्विराट् ॥ ५९ ॥
 प्रतप्तो दह्यमानस्तु सः शैलः कृष्णवर्त्मना । रीनीर्निर्वर्तयामास
 काञ्चनांगनराजतीः ॥ ६० ॥ अन्विहता चापि दीप्तांगो गिरि-
 नाति विगज्जते । धूमोन्मकारान्वननुर्मज्जमान इवाम्बुदे ॥ ६१ ॥

अग्निः धूमः आराज्वालामालाओंसे आकाशको, सुशोभितं करता
 हुआ चारों ओरसे बहने लगा ॥ ५५ ॥ काष्ठोंके टुकड़े रूपी जड़
 वाला पवनसे फैलता हुआ अग्नि-मगोहर वृत्तों वाले श्रीमान्
 गोमन्त पर्वतको भस्म करने लगा ॥ ५६ ॥ उस समय जलते
 हुए पर्वतमेंसे सैंकड़ों शिलाएँ सैंकड़ों टुकड़े होकर बड़ी-२
 उल्काओंके आकारमें गिरने लगीं ॥ ५७ ॥ उस समय जिसमेंसे
 चारों ओर लपटें निकलने लगी थीं, अग्नियुक्त वह पर्वत
 अपनी लपटोंके कारण, ऐसा प्रतीत होता था, मानों
 सूफकी-किरणोंमेंसे पर-पड़ रही होंगी ॥ ५८ ॥
 उस समय धातुओंके पकने पर और वृत्तोंके जलने पर तथा
 जानवरोंके उद्भ्रान्त होनेके कारण पर्वत व्यथा पीकर रोता
 हुआसा दिखाई देता था ५९ ॥ अग्निसे जलते २ तपने पर उस
 पर्वतमेंसे सुवर्ण चोटी और अज्जन, धातुओंकी धाराएँ बहने
 लगीं, ६० ॥ अन्विहसे अपने अंगके अधिक मदीय होने पर भी, बड़े
 पर्वत, अधिक सुशोभित नहीं हो रहा था क्योंकि-धुमके कारण
 उसका शरीर अंधासा हो रहा था और वह समुद्रमें डूबता हुआ

निश्चिष्टोपलसंप्रातः : कर्कशांगारचर्पणः । गिरिर्भस्मिनलोद्धारैः
 रुक्काष्टिरिवाभ्युदः प्रगानपस्रवोत्तिप्तोः धूमसम्प्रभितोदरः ।
 स गिरिर्भस्मता यानोः युगान्ताग्निहतोपमः ॥ ६३ ॥ विद्वल्लो-
 स्तस्य । पार्वेभ्यः सर्पादिभ्यार्धदेहिनः । श्वसन्तः पृष्ठुमूर्धानो
 निरचेरुरशिवेक्षणाः ॥ ६४ ॥ उत्पत्तयोत्पत्तयः गगनात् पुनः
 पुनरवाङ्मुखाः रेसुशोद्रेजिताः सिंहाः शार्दूलाश्रानलाविलाः दध-
 मुमुक्षुः पादपारचैत्र दाहनिर्वासर्ज जलम् ॥ ६५ ॥ बहत्पृथ्वगत-
 र्वातो भस्मांगाराभिपिङ्गलः । धूमच्छाया च गगने दर्पिताम्भोद-
 दर्शना ॥ ६६ ॥ अत्यज्यमानो महासानुविहगैः श्वापदैरपि । गिरि-
 र्भस्मपागाति प्रागल्भ्यात् कृष्णवर्त्मनः ॥ ६७ ॥ सः सुमोचं शिलाः
 शैलश्रलोदग्रशिलोच्चयः । वज्रेण पुरुहुतस्य यथा स्यादारित-

सा दीखना था ६१ जिसके पत्थरोंके ढेर ढीले होगए थे और
 जो कर्कश अंगारोंको बरसा रहा था वह पहाड़ अग्निका उद्धार
 निकालता हुआ वर्षाकालके मंधरी समान प्रतीत होना था ६२
 जिसके भरने मूल्य गए थे, पेटमें भुआँ भर रहा था ऐसा वह
 पहाड़ प्रलकालकी अग्निमें पड़े हुएकी समान भस्म होगया ६३
 उसके पारवोंमेंसे आधे जले हुए सर्प निकलने लगे, वे बड़े २
 मस्तक वाले सर्प कुँकारे भरते हुए क्रूरदृष्टिसे देखने लगे ६४
 घबड़ाये हुए सिंह और अग्निसे व्याकुल शार्दूल आकाशमें ऊपर
 को उड़ल कर नीचेकी मुख कर गिरते हुए आर्तनाद करनेलगे ६५
 वृत्त भी दाहके कारण निर्वासके जलकी छोड़ने लगे ६६ आकाश
 में ऊारही उड़ता हुआ वायु भस्म और अंगारोंमें पीला होकर
 बहने लगा, और आकाशमें घगण्डी वादलकी समान धुमकी
 छाया दीखने लगी ६७ अग्निके बहने पर जब पहाड़के शिखरोंका
 पत्ती और पशु छोड़ने लगे तब तो पहाड़ विकल हो उठा ६८
 इन्द्रके वज्रसे विदीर्ण होनेकी समान वह ऊँची २ शिलाओं

स्तथा ॥ ६६ ॥ आदीप्य तं तु शैलेन्द्रं क्षत्रिया व्यूहदंशिनाः ।
अर्धक्रोशमपक्रान्ताः पात्रकेनाभितापिताः ॥ ७० ॥ दह्यमाने नग
श्रेष्ठे सीदमाने महाद्रुमे । धूपभारैरनालक्ष्ये मूले शिथिलतां गते ७१
सरोपं हि तदा रामो वचनं केशिसूदनम् । वनापे पद्मपत्राक्षं स
सात्तान्मधुसूदनम् ॥ ७२ ॥ दह्यतेऽयं गिरिस्तात सप्तानुशिवर-
द्रुमः । आवयोः कृष्णवैरेण वलिभिर्वसुधाधिपैः ॥ ७३ ॥ पश्य
कृष्णानलोष्णानां सधूमानां समन्ततः । वनानां विरसन्तीव
नगाभ्याशे द्विजोत्तमाः ॥ ७४ ॥ अयं यद्यात्र योरर्थं गोमन्तस्तात
दह्यते । अपशस्यमिदं लोके कौलीनं च भविष्यति ७५ तदस्या-
नृण्यहेतोर्हि नगस्य नगसन्निभ । क्षत्रियान्निहनिष्यामो दोर्भ्या-
मेव युवां वरः ॥ ७६ ॥ एते ते क्षत्रियाः सर्वे गिरिमादीप्य

वाला पहाड़ शिलाएँ गिराने लगा ६६ उस शैलेन्द्रको जलानेके
बाद वयूहरचनासे खड़े हुए क्षत्रिय अग्निमे तपनेके कारण
आधे कोस दूरको दृष्ट गए ७० जब वहउत्तम पहाड़ जलाने लगा
और उसके वड़े रटन्न कष्ट पाने लगे और धुएँके कारण उसका
दीवना बन्द होगया और उसकी जड़ें ढीलीहोने लगीं ७१ तब
बलरागने रोपमें भर कर केशीदैत्यका नाश करने वाले पद्मनेत्र
मधुसूदन श्रीकृष्णसे कहा कि-७२ हे कृष्ण! हमारे वैस्के कारण
ये बली राजे इस पहाड़को कंगूरे शिवर और वृद्धों सहित भस्म
करे डालते हैं ७३ हे कृष्ण ! देखो ! अग्निसे गरम हुए धुएँ
वाले वनोंमेंसे चारों ओरसे निकल कर पत्नी इस पहाड़के पास
रोते फिरते हैं ७४ हे ताता! यह गोमन्त पहाड़ हम दोनोंके कारण ही
जल रहा है, इससे हमारी अपकीर्ति होगी और लोकापवाद
होगा ७५ हे नगोपण ! हे योधाओंमें श्रेष्ठ! इस पहाड़से उच्छ्रण
होनेके लिये हम अपनी भुजाओंसे ही इन-क्षत्रियोंको मार
डालेंगे ७६ ये सब क्षत्रिय पर्वतको जला कर यथास्थान कवच

दर्शिताः । रथिनस्तात दृश्यन्ते यथा देशं युयुत्सवः ॥७७॥ एवं
 मुक्त्वा गिरेः शृङ्गान्मेरुशृङ्गादिवोदुरात् । निपपात बलः श्रीमान्
 वनमालाधरो युवा ॥ ७८ ॥ फादम्बरीमदक्षीणो नीलवोसाः
 सिताननः ॥ स शारदेन्दुसंकाशो वनमालाचितोदरः ॥ ७९ ॥
 फान्तैककुण्डलाधरश्चारुमौलिरवाङ्मुखः निपपात नरेन्द्राणां गर्धये
 केशवपूर्वजः ॥ ८० ॥ अबल्लुते ततो रामे कृष्णः कृष्णाम्बुदो-
 पगः । गोमन्तशिखराच्छ्रीमान्प्लुतोऽमितविक्रमः ॥ ८१ ॥ ततस्तं
 पीडयामास पद्भ्यां गिरिवरं हरिः । स पीडितो गिरिस्तेन निर्म-
 मज्ज समन्ततः ॥ ८२ ॥ जलाकुलोपलस्तत्र प्रसृतो द्विरदो यथा ।
 स तेन वारिणा वह्निस्तत्क्षणात् प्रशमं ययौ ॥ ८३ ॥ कर्त्व्यान्ते
 पहिर रथोमे तयार खड़े हैं अतः युद्धभिलाषी प्रतीत होते हैं ७७
 इसप्रकार कहनेके अनन्तर वनमालाधारी तरुण श्रीमान् बलराग
 जैसे मेरु पहाड़में चन्द्रमा उबलता है, इसी प्रकार उस पहाड़से
 उबल कर कूदे ॥ ७८ ॥ उस समय वह फादम्बरीके मदसे मत्त
 होरहे थे, नीला वस्त्र पहिर रहे थे उनका मुख श्वेत था और
 उनका उदर वनमालाओंसे छारहा था अत एव वह शारदाश्रुत
 के चन्द्रमाकी समान प्रीत होते थे ॥ ७९ ॥ वह रमणीय एक
 कुण्डलाधारी धारण कर रहे थे, उनका मुख मुकुट मुन्दर था और
 उनका मुख नीचेरो था ऐसे केशवके चड़े भाई राजाओंके बीच
 में कूद पड़े ८० बलरामके कूदने पर कौले मेरुकी समान आभा
 वाले अमितविक्रमी श्रीमान् बलराम गोमन्तके शिखरसे कूद
 पड़े ॥ ८१ ॥ तब उस गिरिश्रेष्ठको श्रीकृष्णने अपने चरुणोंसे
 दबाया, उनके दवाने पर पहाड़ सारों ओरसे पानीसे नहा
 गया ॥ ८२ ॥ उस समय मदसे नहाते हुए हाथीकी समान वह
 जलसे भीगते हुए परथरोंवाला पहाड़ नहा गया, उस जलसे
 उस पर्वतकी वह्नि उसी समय शांत होगई ॥ ८३ ॥ उस समय

वारिधाराभिर्मैत्रजातैरिवांशुमात् । तिसिंहासितनिर्घोषः । पीतः
दासा घनाकृतिः ॥ ८४ ॥ । किरीटमूर्धाः सौम्यास्यः पुण्डरीक-
निभेक्षणः । श्रीवत्सवन्ताः सुमुखः सदसूक्तसमद्युतिः ॥ ८५ ॥
रामादनन्तरं कृष्णः प्लुतो वै वीर्यवान्स्ततः । ताभ्यामेव प्लुता-
भ्यां च चरुणैः पीडितो गिरिः ॥ ८६ ॥ । मुमोच सलिलोत्पीडा-
स्तीव्रपावकशान्तये । सलिलोत्पीडनं दृष्ट्वा पार्थिवा भयगा विशन्
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे त्रिप्लुणर्वर्णि गोमन्तदाहो
पर्वणे कृष्णोत्पत्तौ नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ ।
वीशम्पायन उवाच । तौ नगादाप्लुतो दृष्ट्वा वसुदेवसुतायुधौ ।
क्षुब्धं नरवराणीकं सर्वं सम्मूढवाहनम् ॥ १ ॥ । बाहुपहरणौ
तौ तु चेरतुस्तत्र यादवौ । मकराविव सरुधौ समुद्रतोभणा-
युधौ ॥ २ ॥ । ताभ्यां मृधे मविष्टाभ्यां यादवाभ्यां मतिस्त्वभूत् ।

वह पर्वत कल्पान्तमें मैत्रांकी वारिधाराओंसे छिपते हुए सूर्यकी
समान शोभा पाने लगा; उस समय सिंहकी महाध्वनिकी समान
घोष करने वाले पीतवस्त्रधारी मैत्राकार मस्तक परं किरीटधारी
सौम्यमुख पुण्डरीककी समान नेत्र वाले श्रीवत्सके चिन्हसे
चिन्हत सुंदर मुख वाले और इंद्रकी समान कान्ति वाले महा-
कान्तिवान् वीर्यवान् श्रीकृष्ण बलरामके बाद ही क्रुद्धपडे उन
दोनोंके क्रुद्धते समय उनके चरणोंसे पीडिता हुआ महान् पर्वत तीव्र
पावकको शान्त करनेके लिये सलिल बरसाने लगा; जलको
निकलते देख कर राजा भयभीत होने लगे ॥ ८४-८७ ॥
वयालीसवां अध्याय समाप्त ४२ सर्ग । गोमन्तदाहो पर्वणः ।
वीशम्पायनजीने कहा; कि-उन दोनों वसुदेवके पुत्रोंको
पर्वतसे क्रुद्धते देख राजाओंकी सेना और उनके वाहन मूढसे
होगए ॥ १ ॥ वे-दोनों यादव क्रोधमें भर कर समुद्रको क्षुब्ध
करने वाले दो मगरोंकी समान अपनी भुजाओंसे ही तहाँ महार

आयुरानां-पुराणानामादानकृतलक्षणम् ॥ ३ ॥ ततोन्म्वरंतलाद्
 भूयः-पतन्ति स्म महात्मनोः । मध्ये राजसहस्रस्य सपर प्रति-
 कान्तिणोः ॥ ४ ॥ यानि चै गाथुरे युद्धे प्राप्तान्याहवशोभिनाः ।
 नान्यम्यरात् पतन्ति स्म दिव्यान्पाहवसप्लवे ॥ ५ ॥ लेलिहा-
 नानि दिव्यानि दीप्ताग्निसदृशानि चै । निक्षिप्य यानि तत्रैव
 तानि प्राप्तौ स्म यादवी ॥ ६ ॥ क्रव्यादैरनुयातानि मूर्तिपन्ति
 वृहन्ति च । तृपितान्याहवे भोक्तुं नृपमांसानि सर्वशः ॥ ७ ॥
 दिव्यस्रग्दामपारीणि त्रासप्रन्ति । त्रैखेचरान् । मभया भास-
 मानानि दंशितानि दिशो दश ॥ ८ ॥ हलं सम्बर्तकं नाम सौनन्दं
 मूसलं तथा । चक्रं सुदर्शनं नाम गदा क्रौमोदकी तथा ॥ ९ ॥

करने लगे ॥ ३ ॥ उन दोनों योद्धोंके युद्धमें प्रवेश करने पर
 अपने प्राचीन आयुधोंको ग्रहण करनेको विचार उठा ॥ ३ ॥
 तब तो सगरकी आधाजा करनेवाले उन दोनों महात्माओंके
 लिये आकाशमेंसे सहस्रों राजाओंके मध्यमें (आयुध) गिरे ॥
 युद्धमें शोनापाने उन दोनोंके लिये जो आयुध माथुरयुद्धमें
 आकाशसे आये थे, वेही आयुध इस समय युद्धविलम्बमें फिर
 आकाशसे गिरे ॥ ४ ॥ उन्होंने माथुर-युद्धमें जिन दीप्त अग्निकी
 समान लपलपाने, मुखवाले दिव्य आयुधोंको (आकाशमें)
 फेंक दिया था वे ही आयुध इस समय उन योद्धोंके फिर
 गिर गये ॥ ५ ॥ उन आयुधोंके पीछे क्रव्यादोंसे खानेवाले
 प्राणी आरहे थे वे बड़े २ मूर्तिमान् आयुध युद्धमें राजाओंके
 मांसके खानेके लिये तृपितसे प्रतीत होते थे ॥ ७ ॥ वे दिव्य
 गालाओं, चन्दनको धारण करनेवाले अपनी प्रभासे दशों
 दिशाओंको प्रकाशित करते हुए आकाशचारी पक्षियोंके भय-
 भीत कर रहे थे ॥ ८ ॥ सम्बर्त नामक हल, सौनन्द नामक
 मूसल, सुदर्शन नामक चक्र और क्रौमोदकी नामकी गदा ये

चत्वार्येतानि तेनांसि विष्णुप्रहरणानि च । तान्भ्यां समवतीर्णानि
यादिवाभ्यां महायुद्धे ॥ १० ॥ जग्राह प्रथमं रामो बल्लामप्रतिमं
रणे । सर्पन्तमिव सर्पेन्द्रं दिव्यमालाकुलीं हलम् ॥ ११ ॥ सन्वयेन
सन्वयो श्रेष्ठो जग्राह मुसलोत्तमम् । सौनन्दं नाम बलवान्निरा-
नन्दकरं द्विपाम् ॥ १२ ॥ दर्शनीयं च लोकेषु चक्रमादित्यवर्च-
साम् । नाम्ना सुदर्शनं नाम प्रीतो जग्राह केशवः ॥ १३ ॥ दर्श-
नीयं च लोकेषु अनुजलदनिःस्वनम् । नाम्ना शार्ङ्गमिति ख्यातं
प्रीतो जग्राह वीर्यवान् ॥ १४ ॥ देवैर्निगदिताथस्य गदा तस्या-
परे करे । निपिक्ता कुमुदाक्षस्य नाम्ना कौमोदकीति । सा ॥ १५ ॥
तां सप्रहरणीं वीरौ साक्षाद्विष्णुतनूपमौ विष्णुसमरे । रामगोविन्दौ
त्रिपुस्तान् मृत्ययुद्धयताम् ॥ १६ ॥ सायुधप्रहो वीरौ तावन्पान्य-

विष्णुके आयुधरूपः चार-तेज-उग-दोनो-यादवाके लिये महायुद्ध
में अवतीर्ण हुए थे ॥ ६ ॥ १० ॥ उनमेंसे बलरामने प्रथम
दिव्य मालाओंसे आच्छादित सरकते हुए सर्पेन्द्रकी समान हल
को उठा लिया ॥ ११ ॥ तदनन्तर सात्वतीमें श्रेष्ठ बली बलरामजी
ने अपने दाहिने हाथमें शत्रुओंको निरानन्द करनेवाला सौनन्द
नामक उत्तम मूसल उठा लिया ॥ १२ ॥ फिर केशवने भी प्रसन्न हो
कर लोकोमें दर्शनीय आदित्यकी समान चमकते हुए सुदर्शन
नाम बाले चक्रको उठा लिया ॥ १३ ॥ फिर उन वीर्यवान्ने प्रसन्ने
होकर लोकोमें दर्शनीय मेघकी समान शब्द करनेवाले शार्ङ्गधनुष
नामसे प्रसिद्ध धनुषको उठा लिया ॥ १४ ॥ जिनके अर्थको देवता
कहने हैं ऐसे कुमुदकी समान नेत्रोंवाले भगवान्के दूसरे हाथमें
कौमोदकी नामवाली गदा दीखने लगी ॥ १५ ॥ वे विष्णुतनु
(ब्रह्मा) की समान (कर्तुमकर्तुमन्वया कर्तुम् समर्थ) आयुध-
धारी वीर राम और गोविन्द युद्धमें शत्रुओंसे युद्ध करने लगे १६
वे दोनों परस्पर एक आत्मा दो शरीर मतीत होते थे ऐसे राम

मगाबुधौ । पूर्वजाजुगसंज्ञौ तु रामगोविन्दलक्षणौ । १७ ॥ समर
 मतिरूपौ तौ विष्णुरेवो द्विधा कृतः । द्विपत्सु प्रतिशुर्वाणौ परा
 क्रान्तौ यथेश्वरा ॥ १८ ॥ हलमुग्रम्य रामस्तु सर्वेन्द्रमिव केप
 नम् । चचार समरे वीरो द्विपतामन्तकेपमः ॥ १९ ॥ विकर्षनूथ
 वृन्दानि क्षत्रियाणां महात्मनाम् । चचार रोगं सफलं नामेषु च
 ह्येषु च ॥ २० ॥ कुञ्जरांल्लागिल्लोत्तिष्ठान् मुसलाक्षेपताडितान् ।
 रामोऽभिरामः समरे निर्मेमन्थाचलोत्पमः ॥ २१ ॥ ते बध्यमाना
 रामेण समरे क्षत्रियर्षभाः । जरासन्धान्तिकं भीता विरथाः मति
 जग्मिरे ॥ २२ ॥ तानुवाच जरासन्धः क्षत्रधर्मं व्यवस्थितः ।
 धिगेतां क्षत्रवृत्ति वः समरे कातगन्मानाम् ॥ २३ ॥ पराक्रांतस्य
 समरे विरथस्य पलायतः । भ्रूणहत्यामिवासद्धां प्रवदन्ति मनी-
 पिणः ॥ २४ ॥ पत्तिनो भुवि चैकस्थ गोपस्याल्पवलीयसः ।

श्रीरामो गोविन्द नाम बाले दानों वीर प्रायु र और 'ढोन लेकर
 (रणमें विचर रहे थे) ॥ १७ ॥ वे समरमें एकसे रूप बाले
 दीखते थे, और एक विष्णु दो भागोंमें विभक्त होगए थे और
 पराक्रमी ईश्वरकी समान शत्रुओंसे बदला ले रहे थे ॥ १८ ॥
 वीर, बलराग क्रोध सर्पराजकी समान हलको उठा कर शत्रुओंके
 लिये समराजकी समान बन कर समरमें विचरण करने लगे १९
 वे महात्मा क्षत्रियांके रथोंको खेंचते हुए अपने रोपकी हाथी और
 घोड़ा परासफल करने लगे ॥ २० ॥ अचलाकी समान अभिराम
 राममूलके घुपानेसे ताडित हाथियोंको लांगलमे फेंक कर समर
 में मथने लगे ॥ २१ ॥ वे क्षत्रियर्षभारणमें चलरामजीसे पिटने
 पर विरथ होकर भयभीत होते हुए जरासंधके पास पहुँचे २२
 उनसे क्षत्रधर्ममें स्थित जरासंधने कहा, कि-तुम पातरात्माओंकी
 इस क्षत्रवृत्तिकी धिक्कार है ॥ २३ ॥ जो समरमें पराक्रम कर
 विरथ होकर भागने लगता है विद्वान् कहते हैं, कि-उसको असद्य

भीताः किं विनिवर्तन्वं धिमेतां क्षत्रघ्निताम् ॥२५॥ क्षिप्रं समभि
वर्तन्वं गग वाज्येन नोदिताः । यावदेतौ रणे गोपौ प्रेषयामि
यमन्तयम् ॥ २६ ॥ ततस्ते क्षत्रियाः सर्वेऽजरासन्धेन नोदिताः ।
क्षिपन्तः शरजालानि हृष्टा योद्धुमुपस्थिताः ॥ २७ ॥ ते ह्यैः
राश्वनापीडै रथैश्चेन्दुसगमभैः । नागैश्चाभोदसंकाशैर्गदाभ्र-
मणोदितैः ॥२८॥ सततुत्राणनिम्नंगाः । सायुधभरणाम्बराः ।
स्वारापितधनुष्मन्तः सतूणीराः समायवाः ॥ २९ ॥ सञ्जत्रो-
त्सेग्निः सर्वे चारुचामरबीजिताः । रणावनिगता रेजुः स्पन्द-
नस्था महीक्षितः ॥ ३० ॥ तौ युद्धरङ्गापतितौ विरोधन्तौ महा-
धुर्गौ । वसुदेवपुत्रौ वीरौ युयुन्सु प्रत्येदृश्यताम् ॥ ३१ ॥ तद्युद्ध-
मभयत्र तयोस्तेषां तु संयुगे । सायकौत्सर्गयहुलं गदानिर्घान-

श्रूयश्रुत्याही समान पातक लगता है २४ अरे ! तुम थोड़े बल
वाले एक पैदल गोपसे डर गए, तुम्हारे ऐसे क्षत्रियपनको
निकार है २५ अरे तुम मेरे वचनसे प्रेरित होकर शीघ्रही लौट
जाओ तो मैं इन गोपोंको रणमें मार डालूंगा २६ तब तो वे क्षत्रिय
जरासंघके प्रेरणा करने पर प्रसन्न होकर वाणवर्षा करते हुए
लड़नेको उत्तन होगए ॥ २७ ॥ वे सुवर्णकी झूल वाले घोड़ोंपर,
चन्द्रपाफी कान्तिकी समान कान्ति वाले रथों पर और हाथी
वानोंसे ढाँके जाते हुए मैयोंकी समान हाथियोंपर २८ (सवार
हो) श्वच पहिर तलवार आयुध भूषण वस्त्र तूणीर सावन
आंग धनुष ॥ २९ ॥ (सुशीला हो चल रहे थे) वे सब ऊँचे
ऊँचे अत्र लंगा रहे थे और सन पर सुन्दर चगर हुलाये जारहे
थे ऐसे राजे रणमें स्वयं बैठेहुए शोभा पाने लगे ३० युद्धरंगमें
आये हुए वे दोनों महाभुज वसुदेवपुत्र भी-रणमें युद्धरंगना
चाहते हुए दीखने लगे ३१ उन दोनोंकी ओर उन सबकी सुई
भेट होने पर टकण युद्ध होने ला ॥ उपमें बहुतसे वाण

दारुणम् ॥ ३२ ॥ ततः शरसहस्राणि प्रतीच्छन्तीं रणविणी ।
 तम्पतुर्योषमुख्यौ तावभिवृष्टौ यथाचली ॥ ३३ ॥ गदाभिश्चैव
 गुर्वीभिः क्षोणीयैश्च मुद्गरैः । अर्धगानो महोष्वासी यादवो न
 चरुम्पतुः ॥ ३४ ॥ ततः कृष्णोवुदाकारः शंखचक्रगदाधरः ।
 न्यवर्धत महातेजा वातयुक्त इवानलः ॥ ३५ ॥ स चोष्णोर्कतुज्येन
 दीप्यमानेन तेजसा । चिच्छेद् समरे वीरो नृगजाश्वगहारधान् ३६
 गदानिपाविहता लांगलेन च कर्पिताः । न शोकस्ते रणे स्यात्
 पार्थिवा नष्टचेतसः ॥ ३७ ॥ चक्रक्षुरनिकुन्तानि विचिनाणि
 महीक्षिताम् । रथयूथानि भग्नानि न शोकुश्रलितुं रणे ॥ ३८ ॥
 मुशलाक्षोभग्नाश्च कुञ्जराः पृष्टिहायनाः । घना इव घनापाये
 भग्नदन्ता विक्षुक्नुशुः ॥ ३९ ॥ चकानलज्वालहताः सद्दिनः स-

छूटने थे और वह पुत्र गदाओंके पहारसे दारुणरीतसे होने
 लगा ॥ ३२ ॥ जैसे वर्षा होने पर पर्वत वर्षाके गड़गड़ करते
 हैं, इसी प्रकार वे मसिद्ध गुण्य योधा सैकड़ों और सहस्रों
 बाणों से सहते तहाँ, रणकी इच्छासे खड़े रहे ॥ ३३ ॥
 घड़ी २ गदा क्षोणीय और मुद्गरोंसे पीड़ित करने पर भी वे
 दोनों कोपे नहीं ३४ इसी समय मेघकी समान आकार वाले
 शंख चक्र गदाधारी श्रीकृष्ण बाणु वाले अग्निकी समान बढ़ने
 लगे ३५ वीर श्रीकृष्णने समरमें दूर्गकी समान दीप्त तेज वाले
 चक्रको लेकर हाथों घोड़े मनुष्य और बड़े २ रथोंको काटना
 आरंभ कर दिया ३६ गदाके पड़नेसे पिते हुए और लांगलसे
 खँचे हुए राजे मूर्च्छित हो रणमें खड़े न रह सके ३७ चक्रकी
 धारसे काटे हुए राजाओंमें निनित्र भग्न रथोंमें रणमें चलनेकी
 शक्ति नहीं रही ३८-जैसे शम्भू ऋतुमें भेय गड़गडाते हैं, इसी
 प्रकार साठ वर्षके हम्ती भी मृत्तलक आक्षोसे भग्न होकर रोने
 लगे ३९ चक्रकी अनल ज्वालासे मारे हुए पैदल और सवार

पदातयः । पैतुः परासनस्तत्र गथा चक्राहतास्तथा ॥ ४० ॥ चक्र-
लाङ्गलनिर्दग्धं तत्सैन्यं विदलीकृतम् । युगान्तोपहतमख्यं सर्वं
पतितमावर्गो ॥ ४१ ॥ आक्रीडभूमिं दिव्यानामापुधानां वपु-
प्पताम् । षौण्णवानां नृगाम्ते तु द्रष्टुमप्यवतीयमः ॥ ४२ ॥
केचिद्रथाः समृदिताः केनिन्निहतपार्थिवाः । भग्नेकचक्राभ्त्वपरे
विक्रीर्णा धरणीतले ॥ ४३ ॥ तस्मिन्विशसने घोरे चक्रलाङ्गल
सम्प्लवे । दारुणानि गृत्तानि रक्षांस्पर्शात्पातिकाणि च ॥ ४४ ॥
आर्तानां कृन्तनानां पाटितानां च वेणुवत् । अन्तो न शक्यते-
ऽन्येष्टुं नृनागरथयाजिनाम् ॥ ४५ ॥ आपातितनरेन्द्राणां रुधि-
राद्रैरखिलितः । योपेद् चन्दनार्द्राद्गी भैरवा प्रतिभाति मे ४६
नरैश्शास्थिमज्जान्त्रैः शतितानां च दन्तिनाम् । रुधिरोघस्र-
स्तत्र द्वादशामाम मेदिनीम् ॥ ४७ ॥ तस्मिन्महाभीषणके नर

(रथके) पहियेमे मारे हुएकी समान माणरहित होकर गिरने
लगे ४० चक्र और लोगलमे भस्म हुआ वह दलरहित किया
हुआ सेनादल गिरा हुआ ऐसा शोभा पाता था, मानो प्रलय-
कालसे नष्ट होगया है ४१ वे राजे शरीरधारी दिव्य आपुधों
की क्रीडाभूमिकी ओर देख भी न सके ४२ तहाँ बहुतसे रथ
पमन गए, जिन्हींके राजे मारे गए और बहुतसे रथ एक पहिये
के दूटनेसे पृथ्वीमें पड़े हुए थे ४३ चक्र और लोगलमे बिसव
गचाने वाले उस घोर युद्धमें रातसी भयंकर उत्पात होने
लगे ४४ आर्त, चीयने और वेणुकी समान षटने हुए गनुष्य
हाथी रथ और घोड़ोंका पार नहीं गिलना था ४५ गिरे हुए
राजाओंके रुधिरसे आर्द्र हुई रणभूमि चन्दनमे गीले अंग वाली
सूखी समान भैरवा पतीव होती है ४६ गनुष्योंके केश अस्थि
मज्जा और आँदियोंमे तथा षटे हुए हाथियोंके रुधिरके अंगवने
पृथ्वीके द्वादशिया ४७ उस महाभीषण नर और बाहनोंके तीख

वाहनसंलये । शिवानामशिवः शब्देनादिते चोरदशने ॥ ४८ ॥
 आर्तस्तनितसन्नादे रुषिराम्बहृदाकुले । अन्तकातान्तसदृशे
 नागदेहेः समावृते ॥ ४९ ॥ अपातैर्बाहुभिर्योर्धैस्तुरगैश्च विदा-
 रितैः । कंकैश्च वल्लभैश्च नादितैः प्रतिनादिते ॥ ५० ॥ निपाते
 पृथिवीशानां मृत्युसाधारणे रणे । कृष्णः शत्रुभ्रं कर्तुं च चारां-
 तकदर्शनः ॥ ५१ ॥ युगान्ताकप्रभैः चक्रं कालीं चैवापसीं गदाम् ।
 मृद्य सैन्यावनिर्गताः वभाषे केशवो नृपान् ॥ ५२ ॥ किं न युद्धं चते
 वा शूरा हस्त्यश्वरथसंयुताः । किमिदं गम्यते शूराः कृतास्त्रा
 दृढनिश्चयाः ॥ ५३ ॥ अहं संपूर्वजः संलये पदातिममुखे स्थितः ।
 अदृष्टदोषेण रणे भवन्तो येन पालिनाः । स इदानीं जरासन्धः
 करने वाले युद्धमें जब गीदड़िय अपने अशिव शब्दोंका करके
 उसको भयंकर दृश्य-वाला करने लगी ॥ ४८ और आर्त-पुरुष जब
 दकराने लगे तब तहाँ रुषिर रूपी जलके बहुतसे सरोवर बन गए
 और वह रखस्थल हाथियोंको शरीरसे पंढ्र जानेके कारण यम-
 राजसे आक्रान्त स्थलकी समानादीखने लगी ४९ तहाँ पराहाथ
 उलट्टे हुए मोथा-पड़े थे, और विदार हृष्ट-घोड़े पड़े थे और वह
 कंकवल और मृधोंकी चीखोंसे पतिनादित-होरहा था ५० तहाँ
 पर राजा मरने कर गिर रहे थे और उस रणमें मृत्यु एक
 साधारण सी बात होरही थी, उसमें यमराजकी समानादीखने
 वाले कृष्ण शत्रुओंका वध करनेको भूम रहे थे ५१ संशयने सेना-
 भूमिमें खड़े हो मलयकालके सूर्यकी समान चक्रको और लोहेकी
 काली गदाको उठा कर राजाओंसे कहा, कि धर अरे शूरा !
 तुम हाथी-घोड़े वाले होने पर भी क्यों नहीं लड़ते हो ? तुम
 भागे क्यों जाते हो ? तुम अस्त्रविद्याके पारगामी और दृढ निश्चय
 वाले हो ५३ मैं और मेरे बड़े भाई तो मारव्यके दोषसे रणमें
 पैदल ही खड़े हैं और वही मारव्य तुम्हारा पालन कर रहा है,

किमर्थं नाभिवर्तने ॥ ५४ ॥ एवमुक्ते तु नृपतिर्दरदो नाग वीर्य-
वान् । रामं हत्वाश्लोऽग्रभुजं प्रत्ययात् सैन्यमध्यगम् ॥ ५५ ॥
वगापे स तु ताम्राक्षुत्ताणमिव सेवनी । एहोह राम युध्वस्व
मया सार्धपरिन्दम् ॥ ५६ ॥ तन्न युद्धमभ्युत्ताभ्यां रामस्य दर-
दस्य च । मृधे लोकचरिष्ठाभ्यां कुञ्जराभ्यामिवाजसा ॥ ५७ ॥
योजयित्वा ततः स्कन्धे रामो दरदगाहवे । हलेन वलिना श्रेष्ठे
मुशलेनावपोथयत् ॥ ५८ ॥ स्वकायगतमूर्धा वै मुसले नाव-
पोथितः । पपात् दरदो भूमौ दारितार्थं इवाचलः ॥ ५९ ॥
रामेण निहते तस्मिन् दरदे राजसत्तमे । जरासन्धस्य राहस्तु
रामेणासीत् समागमः ॥ ६० ॥ महेन्द्रस्येव वृत्रेण दारुणो लोम-
हर्षणः । गदे गृहीत्वा विक्रान्तावन्योन्यमभिधावतः ॥ ६१ ॥

राजा जरासन्ध इस समय हगारे सामने क्यों नहीं आता है ५४
इस प्रकार कहने पर दरद नागक वीर्यवान् राजा सेनाके बीच
में खड़े हुए और हाथमें उग्रहलके धारण करने वाले बलरामके
पास पहुँचा ५५ जैसे कृपक ताम्र वर्णके नेत्र वाले (अत एव
मदमत्त होनेके कारण अपनी आज्ञा न मानने वाले) वृषभसे
कहे इसी प्रकार उमने बलरामसे कहा, कि-हे राम! आ ! आ !
हे अरिदमन ! तू मेरे साथ युद्ध कर ५६ तब तो जैसे संसारमें
श्रेष्ठ दो हाथी युद्धमें बलपूर्वक लड़ें ऐसे बलरामका और दरद
का युद्ध होने लगा ५७ तब रामने युद्धमें अपने बलवान् हल
उसके कंधे पर रख मूसलसे उसको कूट डाला ५८ जिसका
शिर अपने शरीरमें ही घुस गया था, ऐसी मूसलसे मसला
हुआ दरद भूमिमें डकड़े किये हुए आधे पर्वतकी समान गिर
पड़ा ॥ ५९ ॥ जब रामने राजसत्तम दरदको मार डाला तब तो
राजा जरासन्धका और रामका युद्ध होने लगा ६० जैसे महेन्द्र
का वृत्रासुरके साथ युद्ध हुआ तिसी प्रकार उनका दारुण

कल्पयन्तीं शुभं श्रीं तापुत्रतमहागदी । ददृशाते महात्मानो
 गिरीशशिवरात्रिव ॥ ६२ ॥ व्युपारमन्त युद्धानि प्रेक्ष्य तौ
 पुरुषर्षभौ । संरन्धात्रिव धावन्तौ गदायुद्धेषु विश्रुतौ ॥ ६३ ॥
 तापुभौ परमाचार्यौ लोके ख्यातौ महाबलौ । मत्तात्रिव महा-
 नागावन्योन्मं समधानताम् ॥ ६४ ॥ ततो देवाः सगन्धर्वाः
 सिद्धाश्च परगर्षभः । यक्षाश्चाप्सरश्चैव सगाजगृहः महसूशः ६५
 तद्देवगन्धर्वमहर्षिभिरलंकृतम् । शिशुमेष्पथिकं राजन्-
 भोज्ये निर्मलैरिव ॥ ६६ ॥ अभिदुद्राव रामं च जरासन्धो नरा-
 त्रिपः । सव्यं मण्डलमाश्रित्य बलदेरस्तु दक्षिणम् ॥ ६७ ॥
 तावन्योन्मं गजहाते गदायुद्धविशारदौ । दन्ताभ्यात्रिव मत्तौ
 नादगन्तो दिशो दश ॥ ६८ ॥ गदानिपातो रागस्य शुश्रुवेऽश-
 लोमहर्षण युद्ध होने लगा, वे दोनों पराक्रमी पुरुष गदाको ग्रहण
 कर परस्पर एक दूसरे पर दौड़ने लगे ॥ ६१ ॥ वे दोनों महात्मा
 हाथमें पड़ी भारी गदाओंको उठा कर पृथ्वीको ऊँचाते हुए शिखर
 वाले दो पर्वतोंकी सगान दीखते थे ६२ उन दोनों पुरुषोंमें श्रेष्ठ
 पुरुषोंकी देख और युद्ध होने बंद होगए और वे गदायुद्धमें
 प्रसिद्ध पुरुष कोधमें भर कर दौड़ने लगे ६३ वे दोनों महाबली
 संसारमें (गदाके) परमाचार्य प्रसिद्ध थे वे दोनों गदगत्त हाथी
 की समान एक दूसरे पर दौड़ने लगे ६४ तब तोतहाँ सहस्रों
 देवता मर्धर्व सिद्ध परमर्षिगुरु और अप्सरायें आईं ६५
 हे राजन् ! जैसे नक्षत्रोंमें व्याप्ती आकाश शोभा पाता है तैसे ही
 देवता गन्त गन्धर्व और महर्षियोंसे अलंकृत आकाश शोभा पाने
 लगे ६६ राजा जरासन्ध सन्ने मण्डल वर कर बिलरामपर
 दोड़ा और बलदेवकी दक्षिण मण्डल त्रिप कर जरासन्धे पर
 झपटे ६७ वे गदायुद्ध विशारद दोनों पदमत्त हाथियोंके अपने
 दोनों दिशाओंको प्रति चिन करनेकी समान एक दूसरे पर

पृथिवीपतिः । त्वय्येव भूयोऽपपरं दर्शयिष्यति किल्विषम् ॥ ८३ ॥
 तदिमां सन्त्यजाशु त्वं महीं हतनराकुलाम् । क्रव्यादगणसंकीर्णा
 सेवितव्याममानुषैः ॥ ८४ ॥ करवीरपुरं कृष्ण गच्छाम सवला-
 जुगाः । शमालं वासुदेवं वै द्रक्ष्यामस्तत्र पार्थिवम् ॥ ८५ ॥ इमौ
 रथचरोदग्रौ युवयोः कारितौ मया । योजितौ शीघ्रतुरगैः स्वङ्ग-
 चक्रालकूवरौ ॥ ८६ ॥ शीघ्रमासह भद्रन्ते बलदेवसहायवान् ।
 त्वरामः करवीरस्थं द्रष्टुं तं वसुधाधिपम् ॥ ८७ ॥ दौशम्पायन
 उवाच । पितृष्वसृपतेर्वाक्यं श्रुत्वा चेदिपतेस्तदा । वाक्यं हृष्ट-
 मनाः कृष्णो जगद् जगतो गुरुः ॥ ८८ ॥ अहो सुयुद्धाभिरतौ
 देशकालाधितौ त्वया । वान्धवप्रतिरूपेण संसिक्तौ वचनांबुनां ८९

में तो भागा जा रहा है ॥ ८२ ॥ परन्तु यह राजा अब वीरका
 विचार छोड़ कर नहीं जा रहा है, यह तो फिर भी तुमसे एव
 लावेगा ॥ ८३ ॥ इस लिये आप मारे हुए मनुष्योंसे आकुल
 और कच्चा मांस खाने वाले प्राणियोंसे भरी हुई होनेके कारण
 मनुष्योंके रहनेके अयोग्य इस भूमिको शीघ्र ही छोड़ दीजिये ८४
 हे कृष्ण ! अब हम अपनी सेना और अनुचरोंको साथ लेकर
 करवीरपुर चलें (तो अच्छा है) तहाँ पर हम राजा वासुदेव
 मृगालको देखने ॥ ८५ ॥ मैंने आपके लिये ये दो बड़े भारी
 श्रेष्ठ रथ ठीक कर दिये हैं, इनमें मैंने फुर्तीसे चलने वाले घोड़े
 जुतवा दिये हैं, इन रथोंके अंग पहिये और अन्न तथा कूवर
 अच्छे हैं ॥ ८६ ॥ आप और बलदेवजी शीघ्र ही रथ पर
 सवार होजिये और करवीरपुरमें स्थित उस राजाको देखनेकी
 हम सबोंकी त्वरा करनी चाहिये ८७ दौशम्पायनजीने कहा, कि-
 अपनी बुझाके स्वामी चेदिराजके वचनको सुन कर श्रीकृष्णका
 मन मसन्न होगया, फिर उन जगद्गुरुने कहा, कि-८८ आपने
 अपने वचनरूपी जलकी वर्षा करके युद्धमें लगे हुए हम दोनों

देशकालविशिष्टस्य हितस्य मधुरस्य च । वाक्यस्य दुर्लभा लोके
 वक्ताश्चेदिसत्तम ॥ ६० ॥ चेदिनाथसनाथी स्वः सम्बृत्तो तव
 दर्शनात् । नावयोः किञ्चिदप्राप्यं यगोस्त्वं बन्धुगीदृशः ॥ ६१ ॥
 जरासन्धस्य निधनं ये चान्ये तत्समा नृपाः । पर्याप्ती त्वत्सनाथी
 स्वः कर्तुं चेदिकुलोद्भव ॥ ६२ ॥ यद्नां प्रथमो बन्धुस्त्वं हि सर्व-
 महीक्षिताम् । अतः प्रभृति संग्रामान् द्रक्ष्यसे चेदिसत्तम ॥ ६३ ॥
 चक्रमौशलमित्येवं संग्रामं रणवृत्तयः । कथमिष्यन्ति लोके-
 ऽस्मिन् ये धरिष्यन्ति पार्थिवाः ॥ ६४ ॥ राष्ठां पराजयं युद्धे
 गोमन्त्रश्चक्षसत्तमे । श्रवणाद्वारणाद्वापि स्वर्गलोकं व्रजन्ति हि ६५
 तद्ब्रह्माम महाराज करवीरं पुरोत्तमम् । त्वयोद्दिष्टेन मार्गेण
 चेदिराज शिवाय वै ॥ ६६ ॥ ते स्यन्दनगताः सर्व पवनो-

को देश कालके अनुमार उगदेश देकर हमारे साथ वांछोचित
 काम । किंवा है ६० क्योंकि-चेदिसत्तम ! देशकालके योग्य
 हित और मधुर वचन कहने वाले वक्ता इस लोकमें मिलने
 दुर्लभ हैं ६० हे चेदिनाथ ! आपका दर्शन कर हम सनाथ हो
 गए हैं, आप जैसे पुरुषके बंधु होने पर इस संसारकी कौनसी
 वस्तु हमें नहीं मिल सकती ६१ हे चेदिकुलको उठाने वाले !
 आपसे सनाथ होने पर हम जरासन्ध तथा अन्य राजाओंका भी
 वध कर सकेंगे ६२ तुम सब राजाओंमें यादवोंके मुख्य बंधु माने
 जाओगे हे चेदिसत्तम ! आजसे आप संग्राम देगा करिये ६३ जो
 राजे इस युद्धमें जीवित रह गए हैं वे रणगीषी राजे इस
 संग्रामको चक्रमौशल नामक संग्राम कहेंगे ६४ अचलश्रेष्ठ गोमन्त्र
 पर्वत पर राजाओंके पराजयको सुनने या धागण करनेसे
 (पुरुष) स्वर्गलोकको जावेंगे ६५ हे चेदिराज ! अब हम आप
 की आज्ञानुसार आपके वनाये मार्गसे ब्रह्मणा पानेके लिये नगर-
 श्रेष्ठ करवीरपुरको जावेंगे ६६ तब वे सब मुनिमान् तीन

त्पातिभिर्हयैः । भञ्जिरे दीर्घमन्वानं मूर्तिगन्त इवाग्नयः ॥६॥
ते त्रिरात्रोपिताः मासाः करवीरं पुरोत्तमम् । शिवाय च शिवे
देशे निशिष्टास्त्रिदशोपमाः ॥ ६८ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे त्रिष्णुपर्वणि करवीरपुराभि-
गमनं नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥

वैशम्पायन उवाच । तानामतान विदित्वाऽथ शृगालो युद्ध-
दुर्मदः । पुरस्य वर्षणं मत्वा निर्जगामेन्द्रविक्रमः ॥ १ ॥ रथेना-
दित्यदर्शेन भास्वता रणगामिना । आयुधमनिपूर्णं नेमिनिर्वाप-
हासिना ॥ २ ॥ मन्दराचलकल्पेन चित्राभरणभूषिणा । अक्ष-
यसायकैस्तूष्णैः पूर्णेनार्णवत्रोपिणा ॥ ३ ॥ हर्षस्वेनाश्रुगतिना
सक्तेन शिखरंश्रुपि । हेमकरमर्मेण दृढाक्षेणातिशोभिना ४

अग्निर्गोकै समान रथोमें बैठ गए और पवनकी समान चलने
वाले घोड़ोंके कारण बड़े भारी मार्गको लॉवने लगे ६७ वे तीन
रात पढ़ाव करनेके अनन्तर नगरमें श्रेष्ठ करवीरपुरमें पहुँच गए
और रुक्याण पानेके लिये देवताकी समान उस मंगलमय देश
में घुमे ६८ तैतालीमवाँ अध्याय समाप्त ४३ .

वैशम्पायनजीने कहा, कि- युद्धदुर्मद राजा शृगालने उनको
आया हुआ सुन कर समझा, कि- ये मेरे नगरको दवाना
चाहते हैं. (यह समझकर) वह इन्द्रकी समान पराक्रमी राजा
नगरमेंसे निकला ॥ १ ॥ उसके रथका वर्षा आदित्यकी समान
(तेजस्वी) था और रणमें चला करता था, आयुधोंसे भरा
हुआ था, मेरके गजनेकी समान शब्द करना था = मन्दराचल
की समान चित्र और अःभूतगामि भूषित था, अक्षय भाये और
वाणोंसे पूर्ण था और समुद्रको समान शब्द कर रहा था । ३।
उममें कुर्तिसे चलने वाले घोड़े जो हुए ये, और वह शिखरको
छूलेने ये उम पर सुवर्णकूबर लग रहा था, उसके अक्ष दृढ़

पुत्रधुरेण; दीप्तेन पतनिचरमाग्निना, । खगतेनेन शक्रस्य हर्यश्वेन
 रथाद्रिणा ॥ ५ ॥ सावित्रे नियमे पूर्णं य ददां सविता स्वयम् ।
 आदित्यरश्मिपिरिव रश्मिभिर्यो निगृह्यते ॥ ६ ॥ तेन स्पन्दन-
 मुत्सेनेन द्विपत्स्यन्दनघातिना । स शुभालोऽभ्ययात् कृष्णं शानभः
 पावकं यथा; ॥ ७ ॥ चापपाणिः सुवीक्षणपुः कवची हेममालिकः ।
 सिन्धुप्रानरणोष्णीर्षः पावकाकारलोचनः ॥ ८ ॥ मुहुमुहुर्व्या-
 चपलं विन्निपन्दुःसहः धनुः । निर्वमनोपज वायुं सानलज्वाल-
 मण्डलम् ॥ ९ ॥ भाभिभूर्पणपक्तीनां दीप्तो मेरुर्वाचलः ।
 रथस्थ इव शैलेन्द्रः शृगालः प्रत्यदश्यत ॥ १० ॥ तरयाग्नित-
 शब्देन रथनेमिस्वनेन च वा गुरुत्वेन च नोम्यन्ती चचालोर्वी

ये और वह परमेशोभा पौरहा था ॥ ४ ॥ उसका बंधुर अञ्जा
 था और वह गरुड़की समान चलता था और, वह आकाशमें
 स्थित इन्द्रके रथरूपी पर्वतकी समान दीप्तता था ॥ ५ ॥ सावित्र
 नियम पूर्ण होने पर सूर्यने उसको अपने आप दिया था, सूर्यकी
 किरणोंकी समान उसको किरणोंसे ही पहिचाना जाता था ॥ ६ ॥
 ऐसे शत्रुओंके रथोंको नष्ट करने वाले मुख्य रथ पर बैठ कर
 शृगाल श्रीकृष्णके ऊपर, शुभनेने अग्निके पास जानेकी समान,
 चढ़ आया ॥ ७ ॥ उसके हीराम धनुष था, उसके बाण तीक्ष्ण
 थे, वह कवच पहन रहा था और सुवर्णकी माला पहन रहा था,
 उसका दुपटा और पगड़ी सफेद थी, और उसके नेत्र अग्निकी
 समान हो रहे थे ॥ ८ ॥ वह अपने चपल मत्पश्चा वाले दुःमह
 धनुषको बारंबार चुभा रहा था, और उसने मुखमेंसे अग्निकी
 ज्वालाकी समान चापव यु निकल रही थी ॥ ९ ॥ भूषणोंकी
 प्रभासे वह मेरुपर्वतकी समान दिग रहा था, इस प्रकार वह
 राजा शृगाले पर्वतकी समान रथमें बैठा हुआ था ॥ १० ॥
 उसके गर्जनेकी और रथकी नेमिके शब्दसे और भारीपनके

(३६६) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [चतुश्चत्वारिंश

भयातुरा ॥ ११ ॥ तगापतन्तं श्रीमन्तं मूर्तिमन्तमिवाचलम् । शृगालं
लोकपालामं दृष्ट्वा कृष्णो न विव्यथे ॥ १२ ॥ शृगालश्चापि संरब्धः
स्यन्दनेनाशुगामिना । ममीपे वासुदेवस्य युयुत्सुः प्रत्यदृश्यत १३
वासुदेवं स्थितं दृष्ट्वा शृगालो युद्धलालसः । अभिदुद्राव वेगेन
मेवराशिरिवाचलम् ॥ १४ ॥ वासुदेवः स्मितं कृत्वा प्रातयुद्धाय
तस्थिवान् । तद्युद्धमभवत्ताभ्यां समरे घोरदर्शनम् । उभाभ्यामिब
मत्ताभ्यां कुंजराभ्यां यथा वने ॥ १५ ॥ शृगालस्त्वब्रवीत् कृष्णं
समरे समुपस्थितम् । युद्धरागेण तेजस्वी मोहाचलितगौरवः १६
गोमन्ते युद्धमार्गेण गत्स्वया कृष्ण चेष्टितम् । अनायकानां मूर्खाणां
नृपाणां दुर्वले बले ॥ १७ ॥ स मे सुविदितः कृष्ण क्षत्रियाणां
पराजयः । कृपणानामसत्वानामयुद्धानां रणोत्सवे ॥ १८ ॥

कारणसे नमती हुई पृथ्वी भयके कारण हिलने लगी ॥ ११ ॥
मूर्तिमान् पर्वतकी समान और लोकपालकी समान आभा वाले
श्रीमान् शृगालको देख कर भी श्रीकृष्ण नहीं काँपे ॥ १२ ॥
इतनेमें फुर्तीसे चलने वाले रथमें बैठ क्रोधमें भरा शृगाल भी
वासुदेवके सामने रणाभिलाषीसा दीखने लगा १३ जैसे पंघों
की घटा पर्वत पर झुपटनी है इसी प्रकार वासुदेवको देख कर
युद्धाभिलाषी शृगाल दौड़ा १४ तब तो वासुदेव भी मुस्करा कर युद्ध
करनेको खड़े हो गए तब तो उन दोनोंका समरमें भयंकर दीखने
वाला युद्ध होने लगा, वह ऐसे दीखता था मानों दो मदगत्त
हाथी वनमें युद्ध कर रहे हों १५ उस समय युद्धरागसे तेजस्वी
मोहवश गौरवसे चलितहुए शृगालने रणमें खड़े हुए श्रीकृष्णसे
कहा, कि १६ हे कृष्ण ! तुमने गोमन्त पर्वतमें नायक रहित
मूर्ख राजाओंके दुर्वल बलमें जो युद्ध किया था १७ यह बात
मुझे भली भाँति विदित है और रणोत्सवमें मत्त्व-रहित कृष्ण
क्षत्रियोंके पराजयकी बात भी, मुझे भली भाँति विदित है १८

तिष्ठेदानीं यथा कामं स्थितोऽहं पार्थिवे पदे । कथास्यसि मया
 रुद्धो रणेऽप्यपरिनिष्ठितः ॥ १६ ॥ न चाहमेकं सवती युक्तस्त्वां
 योद्धुमाहवे । अहमेकस्त्वमप्येको द्वौ युद्धाव रणे स्थितौ ॥ २० ॥
 किं जनेन गिरिस्तेन त्वं वाऽहं च रणे स्थितः । धर्मयुद्धेन निधनं
 व्रगत्वेकतरो रणे ॥ २१ ॥ लोकेऽस्मिन् वासुदेवोऽहं भविष्यामि
 हते त्वयि । हते मयि त्वमप्येको वासुदेवो भविष्यसि ॥ २२ ॥
 शृगालश्च वचः श्रुत्वा वासुदेवः क्रमापरः । ईर्ष्यन्तं प्रहरस्वेति
 तं प्रवृत्त्वा चक्रमाददे ॥ २३ ॥ ततः सायकजालानि शृगालः
 क्रोधमूर्च्छितः । विज्ञेय कृष्णी घोरानि युद्धाय लघुविक्रमः २४
 शस्त्राणि यानि चान्यानि मुशलाद्यानि संयुगे । पातयामास
 गोविन्दे स शृगालः प्रतापवान् ॥ २५ ॥ शृगालप्रहितैस्त्रैः पावक-
 ज्वालपालिभिः । निर्दयाभिहतः कृष्णः स्थितो गिरिरिवाचलः

अब तुम इच्छानुसार खड़े रहो, मैं राजाके स्थानमें खड़ा हूँ, अरे पूर्व में मेरे राजाके परतू कहाँ जासकेगा १६ सेनासहित मैं तुम्हें अकेलेसे लड़ना उचित नहीं समझता, अतः मैं भी अकेला और तुम भी अकेले इस प्रकार हम दोनों ही रणमें युद्ध करें २० गनुष्योंके कष्ट देनेसे क्या लाभ ११ हमें तुम दोनों रणमें खड़े हुए हैं, तुम और मैं दोनों रणमें खड़े हुए हैं अतः हम दोनोंमेंसे एक आदमी धर्मयुद्धसे रणमें मारा जाय २१ लोकमें तुम्हारे मारे जाने पर मैं एक वासुदेव रह जाऊँगा, अथवा मेरे जाने पर तुम एक वासुदेव रह जाओगे २२ शृगालके उचलतेको सुन कर क्षमापरायण वासुदेवने उस ईर्ष्या करने वालेसे प्रहार करिये कह कर अपना चक्र उठा लिया २३ तब तो क्रोधसे मूर्च्छित कुर्नीसे पराक्रम करने वाले राजा शृगालने श्रीकृष्ण पर भयंकर बाणजाल छोड़े २४ फिर उस प्रतापी शृगालने और भी मूसल यदि शस्त्र सपरमें गोविन्द पर छोड़े २५ शृगालके फेंके हुए

सोऽस्त्रमहारागिहतः किञ्चिद्रापसमन्वितः । चक्रमुद्यम्य गोविन्दः
शृगालस्य परिज्ञपन् ॥२७॥ त रथस्थं, प्रमाणस्थं शृगालं युद्ध-
दुर्मदम् । जघान समरे चक्रं जातदर्प महाबलम् । २८ ॥- ततः
सुदर्शन, चक्रं पुनरापादु गुरोः त्वरे-। चक्रेशोरसि, निर्भिन्नः स
गतासुर्गतात्सर्वः । अपान ज्ञतजमावी शृगालोऽद्रिगिवाहतः- २९
निशम्य तं निपतितं वज्रगतादिवाचलम्-। तस्य, -सैन्यान्यपय
युनिपनांसि इत्ते वृषे ॥३०॥ केचिन प्रविश्य नगर- कण्ठलागि
हता भृशम्-। रुद्रदुर्दुःखसन्तप्ता, भर्तृशोकाग्निपीडिताः -॥३१॥- ॥
केचिन्नत्रैव शोचनाः स्मरन्ताः सृकृतानि, च, -पतित भूपति भूपौ
न न्यजन्ति स्म दुःखिताः ॥३२॥- ततो, मेघनिनादेन स्वरेणा-

असौकी ज्वालापाला वाले शस्त्रोंसे निर्दयतापूर्वक मार खाने
पर भी श्रीकृष्ण पर्वतकी समान अटले खड़े रहे ३६ अस्त्रको
प्रहार होने पर श्रीकृष्णको कुछ क्रोध आया और उठाने चक्र
को उठा कर शृगाल पर फेंका २७ तब उम चक्रने चण्डी महा-
बली युद्धदुर्मद और चक्रके भयने न भागते हुए रथमें बैठे
शृगालको समरमें मार डाला २८ तब सुदर्शन चक्र फिर श्रीकृष्ण
के हाथमें आगया, चक्रमे उमका हृदय फट गया, उसके प्राण
निकल गए और उसकी जोधा जाती रही और वह सून रहाता
हुआ अपने हुए पहाड़की समान ढर पड़ा २९ उसकी सेनाएँ
उसको वज्रपातमे पर्वतकी समान गिरा हुआ देख कर राजाके
मारने जानेसे उदास हो भाग गई ३० उस समय कोई पुरुष बड़े
भारी शोकसे दब कर नगरमें घुम स्वामीके शोकसे पीडित हो
दुःखसे संतप्त हो डीख फोड़ कर राने लगे ३१ कोई तर्हों पर
खड़े २ ही शोक करने हुए उसने पुण्यमय कर्मोंका स्मरण करने
लगे और उन दुःखित पुण्योंने पृथ्वीमें पड़े हुए भूपतिको न
झोटा ३२ तदनन्तर कण्ठलागती समान नेत्री वाले अरिदमन

रिविपदेनः । कृष्णः कमलपत्रान्नो जनानामभयं ददी ॥ ३३ ॥
 चक्रोचितेन हस्तेन राजतांगुलिपर्वणा नि भेतव्यं न भेतव्यमिति
 तानभ्यभाषत ॥ ३४ ॥ नास्य पापस्य दोषेण निरावोधकर
 जनम् । घातयिष्यामि समरेनेदं शूरव्रतं मतम् ॥ ३५ ॥ अश्रु-
 पूर्णमुखा दीनोः क्रन्दमानो भृश तदोपतितां च शृगालासुभो
 भ्रष्टः सन् दीनिमानसः ॥ ३६ ॥ तेषु पश्यन्ति पतितं धरण्यां
 धरणीपतिम् । चक्रनिर्दारितोरस्कं भिन्नशृङ्गमिवाचलम् ॥ ३७ ॥
 विलापति स्म ते सर्वे सचिवाः । समजा भृशम् । साश्रुपतिक्षणा
 दीनाः शोकस्य वशमागतो गौ ३८ ॥ तेषां रुदितशब्देन पौराणां
 विश्वरैः स्वरैः । महिषस्तस्य निष्पेतुः सपुत्रा रुदिताननाः ३९
 तास्त निपतितं दृष्ट्वा श्लाघ्यं भूमिपतिः पतिम् । स्तनानारुह्य

श्रीकृष्णने मेघकी समान गरभीरा स्वरमें मनुष्योंको आश्वासन
 देते हुए कहा, कि-३३ उन्होंने अपने शोभायमान अंगुलिपर्व
 णाले चक्र (धारणः करने) योग्य हाथ (को उठा कर) उनसे
 कहा, कि-तुम डरो मत डरो मत ! ३४ तुम्हारे मुख आँसुओं
 से भर रहे हैं, और तुम दीन होकर बहुत रो रहे हो, और यह
 शृगाल भी मनमं खिन्न हो गिर पड़ा है अतः मैं इस पापोंत्मा
 के दोषसे तुम वाधा न देनेवाले मनुष्योंके समारमें न माऊंगा,
 क्योंकि-यह शूर पुरुषोंका व्रत नहीं माना जाता ३५-३६ दृष्टे
 हुए शिखरवाले पर्वतकी समान चक्रसे निर्दारित बालीवाले
 धरिणीपतिको उन्होंने देखा ३७ उस समय सब मजा और मंत्री
 शोकके वशमें ही नेत्रोंमेंसे आँसू बहाते हुए विलाप करने लगे ३८
 उनके रीनेके शब्दमें और नेगरा निवासियोंके विश्वर स्वरोंको
 सुन कर उसकी रागियों और उसके पुत्रारोयनें मुखसे निकल
 पड़े ॥ ३९ ॥ वे उस भूमिपति अपने प्रशंसनीय पतिको गिरा
 हुआ देख कर परम दुःखित हो अपनी छातीको हाथोंसे छूट

करजर्भृशार्ताः- पर्षदेवयन् ॥ ४० ॥ उरांस्युत्सिजांश्चैव शिरो-
जान्याकुलान्यपि । निर्दगं ताडयंत्यस्ना विस्वरं रुरुदुःस्त्रियः ४१
तस्योरसि सुदुःखार्ता मृदिताः क्लिन्नलोचनाः । पेतुरुर्ध्वभुजाः
सर्वाश्चिह्नममृता लता इव ॥ ४२ ॥ , तासां वाष्पाम्बुपूर्णानि
नेत्राणि नृपयोषिनाम् । वारिनिपहतानीव पंकजानि चकाशिरे
ताः पतिं पतितं भूमी रुदन्त्यो हृदि ताडिनाः , । लालप्यमानाः
करुणं योषितः पर्षदेवयन् ॥ ४४ ॥ पुत्रं चास्य पुरस्कृत्य बालं
प्रसूतलोचनम् । शक्रदेवं पितुः पार्श्वे द्विगुणं रुरुदुःस्त्रियः ४५
अयं ते वीरविक्रान्त बालः पुत्रो न पण्डितः । त्वद्विहीनः कथ-
मयं पदे स्थास्यति पैतृके ॥ ४६ ॥ कथमेकपदे त्यक्त्वा गतो-
ऽस्यन्तः पुरं परम् । अठस्तास्त्रव सौख्यानां किं कुर्म विधवावयम्

कर विलाप करने लगी ॥ ४० ॥ वे स्त्रियें निर्दतासे अपनी द्याती
में स्तन और केशोंको पीड़ित करती हुई डकरा कर रोने
लगीं ॥ ४१ ॥ उसके वक्षःस्थल पर वे दुःखसे आर्त हुई कुम्ह-
लाई हुई और भीगे हुए नेत्रों वाली स्त्रियें ऊपरको भुजा कर
जड़ कटी लताकी समान गिर पड़ीं ॥ ४२ ॥ उन राजस्त्रियोंके
वाष्पजलसे पूर्ण नेत्र अहलेसे गारे हुए कमलोंकी समान दीखने
लगे ॥ ४३ ॥ वे स्त्रियें अपने पृथ्वीमें पड़े हुए पति को रो हृदय
में पीड़ित हो करुणाजनक रीतिमें विलाप करने लगीं ॥ ४४ ॥
तदनन्तर उसका बालक पुत्र आया उसके नेत्रोंमेंसे आँसू निकल
रहे थे उम शक्रदेवको उसके पास गवड़ा कर वे स्त्रियें दुगनी
रोने लगीं ॥ ४५ ॥ कि-हे वीर-विक्रान्त ! तुम्हारा यह पुत्र
बालक है, नतुर नहीं है, तुमसे राजा होकर यह अपने पैतृक
पद पर कैसे बैठेगा ॥ ४६ ॥ तुम्हारे पदमें हमको त्याग कर
दूगने अन्तपुरमें ज्यों चले गए, तुम्हारे सुखसे हम वृष नहीं हुई
हैं, हाय ! हम विधवायें अब क्या करें ! ॥ ४७ ॥ उसकी म-

तस्य पद्मावती नाम महिषी प्रमदोत्तमा ॥ रुदती पुत्रमादाय वासु-
 देवमुपस्थिता ॥ ४८ ॥ पस्त्वया पातितो वीर रणप्रोक्तेन कर्मणा ।
 तस्य मेतगतस्यायं पुत्रस्त्वा शरणं गतः ॥ ४९ ॥ यदि त्वां
 मणमेतासौ कुर्वाद्वा शासनं तव । नागमेकगहारेण जनस्तप्येत
 दारुणम् ॥ ५० ॥ यदि कुर्वादयं मूढस्त्वयि बान्धवकं विधिम् ।
 नैवं परीतः कृपणः सेवेत धरणीतलम् ॥ ५१ ॥ अयमस्य विप-
 न्नस्य बाधवस्य तवानघ । सन्तती रक्षतां वीर पुत्रः पुत्र इवा
 त्मजः ॥ ५२ ॥ तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा महिष्या यदुनन्दनः । मृदु-
 पूर्वमिदं वाक्यमुवाच वदताम्बरः ॥ ५३ ॥ राजपत्नि गतो रोपः
 सहानेन दुःशात्मना । मरुतिस्था वयं जातो देवि सैपोऽस्मि बाधवः
 रोपो मे विगतः साध्वितव वाक्यैरकल्मषैः । योयं पुत्रः शृगा-

णियोमं श्रेष्ठ पद्मावती नाम । बाली पटरानी पुत्रको लेकर रोती
 हुई वासुदेवके पास पहुँची ॥ ४८ ॥ (और कहा, कि-) हे
 वीर ! तुमने रणके कहे हुए कर्मोंसे जिसको मार डाला है, उस
 मरे हुएका यह पुत्र तुम्हारी शरणमें आया है ॥ ४९ ॥ हे कृष्ण !
 यह आपको मणाम करे वा आपकी आज्ञा माने तो आप एक
 साथ ऐसा दारुण प्रहार न करें, जिससे मजा कष्ट पावे, ५०
 हे कृष्ण ! यह मूढ़ यदि आपसे बान्धवोंकी विधि बर्ते, तो ऐसे
 दीन गनुष्यको आपको धरणीतलका सेवन न कराना चाहिये ५१
 हे निष्ठाप ! आप विपत्तिमें पड़े हुए अपने बाधवकी पुत्रसन्तति
 की हे वीर ! पुत्रकी समान रक्षा करिये ॥ ५२ ॥ उस पटरानी
 के वाक्य को सुनकर बक्ताओंमें श्रेष्ठ यदुनन्दनने मृदुतापूर्वक यह
 वचन कहा, कि- ॥ ५३ ॥ हे राजपत्नि ! मेरा रोप तो उस
 दुरात्माके साथ ही चला गया, हे देवी ! अब मैं मरुतिस्थ
 होगया हूँ और मैं तुम्हारा वही बाधव हूँ ५४ हे साध्वि ! तुम्हारे
 निष्ठाप वचनोंसे मेरा रोप दूर होगया, अब तुम शृगालक पुत्र

तस्य ममाप्येष न संशयः ॥ ५५ ॥ अभयं चाभिपेकं च ददा-
 म्यस्मै सुखाय वै । आहूयंतां प्रकृतयः पुरोधामन्त्रिणस्तथा ५६
 पितृपैतामहे राज्ये तत्र पुत्रोऽभिषिच्यताम् । ततः प्रकृतयः सर्वाः
 पुरोधामन्त्रिणस्तथा ॥ ५७ ॥ अभिपेकार्थमाजगम्युर्वती वै राम-
 केशवी । ततः सिंहासनस्थं तु राजपुत्रं जनार्दनः ॥ ५८ ॥ अभि-
 पेकेण दिव्येन योजयामास वीर्यवान् । अभिषिच्य शृगालस्य
 करवीरपुरे सुतम् । कृष्णस्तदहरेवाशु प्रस्थानमभ्यरोचयत् ५९
 रथेन हरियुक्तेन तेन युद्धार्जितेन वै । -केशवः प्रस्थितोऽभवानं
 वृत्रहो त्रिदिवं यथा ॥ ६० ॥ शक्रदेवोऽपि धर्मात्मा सहमात्रा
 परन्तप । सवाल्लवृद्धयुवतीमुख्याः प्रकृतयस्तथा ॥ ६१ ॥ शिवि-
 कायामधारोप्य शृगालं युद्धदुर्मदम् । संहता दूरमार्गेण पश्चिमा-
 भिमुखा ययुः ॥ ६२ ॥ नैघनेस्य विधानेन चक्रुस्ते तस्य सत्-

को भी मेरा पुत्र सगभो ५५ में इसको सुख देनेके लिये इसका
 अभय देता हूँ और इसका अभिपेक करूँगा अब तुम प्रजा पुरो-
 हित और मंत्रियोंको बुलवाओ ५६ और इस अपने पुत्रका चाप
 दादेके राज्यपर अभिपेक करो, तदनन्तर सब प्रजा, पुरोहित
 मनी ५७ अभिपेक करनेके लिये जहाँ पर राम कृष्ण थे तहाँ
 आ पहुँचे, तदनन्तर वीर्यवान् जनार्दनने सिंहासन पर बैठे हुए
 राजपुत्रका दिव्य अभिपेक किया, करवीरपुरमें शक्रदेवका
 अभिपेक करके श्रीकृष्णने उसी दिन प्रयाण करनेका विचार
 लिया ५८-५९ जैसे वृत्रासुरका नाशक इन्द्र स्वर्गको जाता है
 उन्ही प्रकार केशव भी उम युद्धमें पाये हुए (-सूर्यदत्त) वेदोंसे
 जुते रथमें बैठ कर चले ६० हैं परन्तप ! तदनन्तर धर्मात्मा शक्र-
 देव भी अपनी माता माला कृद्ध युवती और प्रधान २ प्रजाके
 आदिमियोंके ले ६१ युद्धदुर्मद शृगालके पालकीमें चढ़ा इष्टदंड
 दो दूरके मार्गमें पश्चिमाभिमुख होकर चले ६२ तदनन्तर उन्होंने

क्रियाम् । सत्कारं कारयामासुः पितॄणां पारलौकिकम् ॥ ६३ ॥
 उद्दिश्योद्दिश्य राजानं श्राद्धं कृत्वा सहस्रशः । ततस्ते-सलिलं
 दत्त्वा नामगोत्रादिकीर्तनैः ॥ ६४ ॥ पितर्युपरते-घोरे शोकसंविग्न-
 मानगाः । कृत्वोदकं तदा राजा, गविवेश पुरोत्तमम् ॥ ६५ ॥
 इति श्रीमहाभारते, खिलेषु इतिनाशे विष्णुपर्वाणि ; नृपालवधो-
 नाम तदुत्तमार्शोध्यायः ॥ ४४ ॥
 वैशम्पायन उवाच । तौ तु स्वल्पेन कालेन-दमयोपेण
 संगतौ । अथाश्वविधिनाः तौ तु पञ्चरात्रोपितौ पथि ॥ १ ॥ दम-
 योपेण संगम्य पञ्चरात्रोपिताविव । जग्मतुः सहितौ वीरौ मुदा
 परमया युतौ । नगरां गथरां प्राप्तौ-वसुदेवसुताबुधौ ॥ २ ॥
 ततः मत्पुत्रताः-सर्पे पादवा-यदुनन्दनौ । सचला-हृष्टमनस
 उग्रसेनपुरोगमाः ॥ ३ ॥ श्रेयसः-मकृन्वयश्चैव मन्त्रिणश्च यथो-
 चिताः । सवालवृद्धा सा चैव पुरी सम्भिवर्तत ॥ ४ ॥

परणविधिमे उसका सहकार किया, उसका पितृसंबंधी पारलौ-
 किक सहकार किया, ६३ तदनन्तर उन्होंके राजाके निमित्त
 सहस्रों श्राद्ध किये, और नाम गोत्र आदिका कीर्तन-करके उस
 का तपणीकिया ६४ अथत्ते पराक्रमी पिताके मारे जाने पर शोक-
 व्गाकुलचित्त तद्द राजा उदकक्रिया करके अपने श्रेष्ठ नगरमें
 घुसा ६५ चौबालीसवों अध्याय समाप्त ४४

वैशम्पायनजीने कहा, कि- तदनन्तर वे दोनों दमयोपके साथ
 थोड़े ही समयमें अश्वविधिसे मार्गमें पाँच रातका पड़ाव करके
 मयुरा पहुँचे, परंतु उन परम ममन्न पुरुषोंको वे पाँच रातमें
 दमयोपसे एक रात्रिकी समान ही मतीत हुई थी १-२ तदनन्तर
 उग्रसेन आदि सन यादव सेना सहित अपने मनमें प्रसन्न होकर
 उन यदुनन्दनोंका सत्कार करनेके लिये आये ॥ ३ ॥ श्रेष्ठ
 मकृत्तिगण्डल मंत्री, बालक वृद्ध आदि सब पुरी तहाँ पर आ गई ४

नन्दितूर्याण्यत्रान्त स्तूयेतां पुरुषर्षभौ । रथ्या पताकामालिन्यो
 भासन्ति स्म समन्ततः ॥ ५ ॥ हृष्टा प्रमुदिता सर्वा पुरी परम
 शोभिता । भ्रात्रोस्त्रयोरागमने यथैवेन्द्रगहे तथा ॥ ६ ॥ मुदिता-
 स्तत्र गायन्ति राजमार्गेषु गायकाः । स्तवाशीर्वाहुला गाथा
 यादवानां प्रियंकराः ॥ ७ ॥ गोविन्दरामौ सम्प्राप्ता भ्रातरौ
 लोकविश्रुता । स्वे पुरे निर्भयाः सर्वे क्रीडध्वं यादवाः सुखम् न
 न तत्र कश्चिद्दीनो वा मलिनो वा विचेतनः । मथुरायामभूत्
 कश्चिद्रामकृष्णसपागमे ॥ ८ ॥ वयांसि साधुवाक्यानि महृष्टा
 गोहयद्विपाः । नरनारीगणाश्चैव भेजिरे मानसं सुखम् ॥ १० ॥
 शिवाश्च भवयुनीता विरजस्का दिशो दश । देवानानपि सर्वाणि
 हृष्यन्त्वायतनेष्वथ ॥ ११ ॥ यानि लिङ्गानि लोकस्य वृत्तानीह
 कृतं युगे । तानि सर्वाण्यदृश्यन्त तयोरागमने तदा ॥ १२ ॥ ततः

उस समय नन्दितूर्य वजने लगे, और उन पुरुषर्षभों की स्तुति
 होने लगीं मलिनोंमें भंडों लगा दी गई और ये चारों ओरसे
 प्रकाशित होने लगीं ॥ ५ ॥ इस प्रकार उन दोनों भाइयोंके आने
 पर इन्द्रोत्सवकी समान वह पुरी परम प्रसन्न हुई ॥ ६ ॥ उस
 समय गायक राजमार्गोंमें प्रसन्न होकर यादवोंकी मिय लगने
 वाली आशीर्वादात्मक श्रुतली गाथाएँ गाने लगे ॥ ७ ॥ (वे
 कहने लगे, कि -) संभार प्रसिद्ध गोविन्द और राम नामक
 भाई आ गए हैं अब सब यादव अपने नगरमें निर्भय होकर सुख-
 पूर्वक क्रीड़ा करो ८ राम कृष्णको मथुरामें आने पर तहाँ पर
 कोई मलिन वा विचेतन नहीं दीखता था ९ उस समय पत्नी
 मनोहर वाणी बोलने लगे । हाथी घोड़े और गौएँ प्रसन्न हो गईं
 और नर नारियोंके मनमें बड़ा सुख हुआ १० उस समय
 सुखदायक पवन चलने लगा और दशों दिशाएँ रजोरहित हो गईं
 और सब देवता देवमंदिरोंमें प्रसन्न होने लगे ११ सत्ययुगमें जो

काले शिवे पुण्ये स्पन्दनेनारिपर्दनौ ॥ हरियुक्तेन तौ वीरौ ।
 प्रविष्टौ मथुरां पुरीम् ॥ १३ ॥ मविश तं पुरीं रम्यां गोविन्दं
 राममेव च । अनुत्तमसुर्गदुग्णाः शत्रु देवगणा इव ॥१४॥ वसु-
 देवस्य भवनं पितुस्तौ यदुनन्दनौ ॥ महष्टौ हृष्टवदनौ चन्द्रादित्या-
 विधानलम् ॥१५॥ तत्रायुधानि संन्यस्य वृद्धे स्वैरचारिणौ ।
 सुमुदाते यदुवर्षौ वसुदेवसुतायुधौ ॥१६॥ एवं तावेकनिर्वाणौ
 मथुरायां शुभाननौ । उग्रसेनाजुर्गौ भूत्वा कश्चित् कालं मुगोदतुः
 इति श्रीमहाभारते स्विलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि-रामकृष्णयो-
 -र्मथुरायां प्रत्यागमनं नाम पंचचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४५॥

श्रीशम्पायन उवाच । कस्यचिन्वयं कालस्य स्मृत्वा गोपेषु
 सौहृदम् । जगामैको व्रजं रामः कृष्णस्यानुमते स्थितः ॥ १ ॥
 स गतस्तत्र रम्याणि ददर्श विपुलानि चै । भुक्तपूर्वाण्यरण्यानि ।

चिन्ह संसारमें दीखते थे वे सब चिन्ह राम कृष्णके आने पर
 प्रकट हो गए १२ तदनन्तर कल्याणकारक पुण्यपय समयमें वे
 दोनों अरिदगन वीर घोड़ोंसे जुते रथमें बैठ कर मथुरापुुरीमें
 घुसे-१३ रमणीयपुरीमें प्रवेश करने वाले राम और गोविन्दके
 पीछे यादव ऐसे चले जैसे देवता इन्द्रके पीछे जाते हैं, १४ वे
 दोनों यदुनन्दन अपने पिताके घरमें प्रसन्न होकर, चन्द्र और
 सुर्गके पहाड़ पर चढ़नेकी समान, चढ़ गए १५ तहाँ पर आयुध
 रख कर वे स्वीरघारी यदुवर दोनों वसुदेवपुत्र प्रसन्न हुए १६
 इस प्रकार वे एकसा निर्माण करने वाले शुभसुख राम कृष्ण
 उग्रसेनके अनुकूल रह कर कुछ समय तक सुखपूर्वक तहाँ रहते
 रहे १७ पैंतालीसवाँ अध्याय समाप्त ४५

श्रीशम्पायनजीने कहा, कि-कुछ समय बीतने पर गोपोंकी
 मित्रताका स्मरण करके बलरामजी श्रीकृष्णकी अनुमति लेकर
 अर्बलेही मथुरापुुरीको चले ॥ १ ॥ तहाँ पहुँचने पर उन्होंने

सरांसि सुरभीणि च ॥ २० ॥ स प्रविष्टस्तु वेगेन तं व्रंजी कृष्ण-
पूर्वजः । वन्येन रमणीयेन वेषेणानंकृतः प्रभुः ॥ २१ ॥ स तानभा-
षत प्रीत्या यथापूर्वगारिन्दमः । गोपास्तेनैव विधिना । यथान्यायं
यथाशयः ॥ ४ ॥ तथैव माह तान् सर्वास्तथैव परिहर्षयन् । तथैव
सहगोपीभिर्योजयन् गधुनाः कथाः ॥ ५ ॥ । तमूचुः स्वविरा-
गोपाः मियं गधुरभाषणम् ॥ रामं रमयति श्रेष्ठं प्रवासात् पुनरा-
गतम् ॥ ६ ॥ स्वागतं ते महाबाहो यदूनां कुलनन्दन ॥ अत्र स्म
निर्घृतास्तात यत्त्वां पश्यामहे वंगम् ॥ ७ ॥ प्रीताश्चैव वयं वीर
यत्त्वं पुनरिहागतः ॥ विग्वचातस्त्रिषु लोकेषु रामः शत्रुभयंकरः ॥
वर्धनीया नयं वीर स्वगा, यादवनन्दन ॥ । अथवा ॥ आगमनस्तात
रमन्ते जन्मभूमिषु ॥ ८ ॥ त्रिदशानां वयं मान्या ॥ अथवा ॥

पहिले भोगे हुए बहुतसे वन सरोवर और गौओंको देखो २
वनके रमणीय वेषमे । अनांकृत प्रभु बलरामजी वेगपूर्वक उस
व्रजमें घुसे ॥ ३ ॥ फिर उन अरिदमनने 'अवस्था' और 'न्यायके
अनुसार गोपोंसे उसी प्रकार प्रीतिपूर्वक वार्तालाप किया ॥ ४ ॥
उन्होंने उनके साथ उसी प्रकार उनको हर्षित करिते हुए उनसे
वार्तालाप किया, और उसी प्रकार गोपियोंसे भी गधुर कथाएँ
कही ५ रमण कराने वालोंमें श्रेष्ठ गधुरभाषी प्रवाससे लफ्फ
आये हुए मिय बलरामसे वृद्ध गोपोंने कहा, कि-६ हे यदुओंके
कुलको आनन्द देने वाले ! हे महाभुज ! आपका स्वागत है,
हे तात ! हम आपके देख रहे हैं अतः । हम आज परम सुखी
हुए हैं ७ हे वीर ! आप यहाँ पर फिर आए, अतः हम
प्रसन्न हो रहे हैं, ये शत्रुघ्नो भग देने वाले रामतीनों लोकोंमें
प्रसिद्ध हैं ८ हे यादवनन्दन ! आप हमको विहाया देते हैं,
अथवा हे तात ! माणी जन्मभूमिमें रमण कर रहे हैं ९ हे विमलान-
नन ! हम आपके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, १० अब हमने

नन । ये स्म दृष्टोस्त्वया ताव कांक्षिताया तत्रागमम् ॥ १० ॥
 दिष्ट्या ते निहता मत्स्यः कंसश्च विनिपातितः । उग्रसेनोऽभि-
 पिक्तश्च गाहात्म्येन जनेन वै ॥ ११ ॥ समुद्रे च श्रुतोऽस्माभि-
 स्तिमिना सह विग्रहः । गोगन्ते च श्रुतोऽस्माभिः क्षत्रियैः सह
 विग्रहः ॥ १२ ॥ दरदस्थ बधश्चैव जरासन्धे च या मतिः ।
 तरुचापुत्रावतरणं श्रुतं नः परमाहवे ॥ १३ ॥ बधश्चैव शृगालप्य
 करवीरपुरोत्तमे । तत्सुतस्याभिपेक्ष्य नागराणां च सान्त्वनम् १४
 मथुरायां प्रवेशश्च कीर्तनीयः सुरोत्तमैः । प्रतिष्ठिता च वसुधा
 पार्थिवाश्च वशीकृताः ॥ १५ ॥ तव चागमनं दृष्ट्वा सभाग्याः
 स्प यथा पुरा । तेन स्म परितुष्टा वी हृषिताश्च सवान्धवाः १६
 मत्स्युवाच ततो रामः सर्वास्तानभितः स्थितान् । पादवेण्वपि
 सर्वेषु भवन्तो मग चान्धवाः ॥ १७ ॥ इदानीं योगतं वाच्यमिह

आपको देख लिया, अतः हम देवताओंके भी मान्य हो गए १०
 तुमने मत्स्योंको मार डाला और कंसको भी मार डाला, यह बड़े
 भाग्यकी बात है, महात्मा मनुष्य होनेके कारण आपने उग्रसेनका
 राज्य पर अभिषेक भी कर दिया है ११ हमने आपका समुद्रमें
 तिमि(पञ्चजन)के साथका युद्ध सुना है और गोगन्तपर्वतमें आप
 का क्षत्रियोंके साथका युद्ध भी सुना है ॥ १२ ॥ दरदका बध और
 जरासन्धविषयक बुद्धि और महायुद्धमें आयुधोंका उतरना भी
 हमने सुना है ॥ १३ ॥ नगरश्रेष्ठ करवीरपुरमें शृगालका बध
 भी हमने सुना है, उसके पुत्रका अभिषेक और नागरिकोंके सान्त्वने
 की बात भी हमने सुनी है ॥ १४ ॥ देवताओंके कीर्तन करने
 योग्य आपका मथुराका प्रवेश (हमने सुना है) आपने पृथ्वी
 को प्रतिष्ठित कर दिया और राजाओंको वशमें कर लिया है १५
 आपके आगमनको सुन कर हम पहिलेकी समान भाग्यवान् हो
 गए हैं ॥ १६ तब तो चारों ओर खड़े हुए उन सबसे बलरामजी

चैतानयो रतम् । भवद्विर्वर्तिताश्चैव यास्यामो, विक्रियां कथम् १८
 गृहेषु भवतां भुक्तं गावश्च परिरञ्जिताः । अस्माकं वान्यताः सर्वे
 भवन्ते बद्धसाहदाः ॥ १९ ॥ श्रुत्वन्येवं यथातत्त्वं गोपमध्ये हला-
 युधे । सहस्रवदना भृशो बभूवुर्जनयोपितः ॥ २० ॥ ततो वनां-
 तरगतो रमे रागो महाबलः । एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ते रागाय विद्वि-
 तात्तमे ॥ २१ ॥ गोपालैर्देशकालङ्कैरुपानीयत वाहणी । सोऽपि-
 वत् पाण्डुराभ्राभस्तत् कालं ह्यतिभिर्दृशतः ॥ २२ ॥ वनान्तरगतो
 रामः पानं गदसमीरणम् । उपनिन्युस्ततस्तस्मै वन्यानि विनि-
 धानि, च ॥ २३ ॥ प्रत्यन्तरमणीयानि पुण्याणि च फलानि च ।
 सेन्याश्च विनियान गन्थान् भक्ष्याश्च हृदयंगमान् ॥ २४ ॥ मद्यो
 ह्यनि पद्मानि त्रिकचन्त्युत्पलानि च । शिरसा चारुकेशेन किञ्चि-

ने कहा, कि-सब यादवांमें आग हमारे (विशेष) बांधव हैं १७
 हमारी बान्धवावस्था यहीं पर बीती थी, और यही हमने क्रीड़ा
 की थी, आपने ही हमें बड़ाया था अतः हम आपसे विचार कैसे
 लासकते हैं ॥ १८ ॥ हमने आपके घरोंमें खाया है और गौओं
 की रक्षा की है याग सब हमारे बद्धसाहद वाले बांधव हैं १९
 गोपोंके म-यमें हलायुध उत्तरामजी इस प्रकार कह रहे थे, तब
 तो ब्रह्मस्त्रियोंने मुख फिर मिला उठे ॥ २० ॥ तदनन्तर
 महाबली उत्तरामजी वनमें जाकर रागण करने, लगे, देश
 और कालको जानने वाले गोपाल बहुत समयके अनन्तर
 आये हुए रामके लिये बाहणी ले आये, तब श्वेत बादलोंकी
 समान आभा वाले जाति भाइ गोंसे त्रिरे हुए उत्तरामने बाहणी
 ली ॥ २१—२३ ॥ जब वनमें पहुँचे हुए रामने नशीली गंध
 वाली बाहणीको पीलिया, तदनन्तर वे अनेक प्रकारकी वनकी
 विविध प्रकारकी वस्तुएँ, राणीव पुष्प फल, बहुतसी सुगंधित
 सेननीय सुवनियें आ। हरपक्षी पिया लगने वाले सुरतके तोड़े

दाहृतमौलिना । श्रवणैकावलम्बेन कुण्डलेन निराजता ॥ २५ ॥
 चन्दनाद्रंण पीतेन वनमालिनिंलम्बिता । विवर्भाधुरगा रामः
 कैलासेनेन मन्दरः २६ नीले वसन्तो वसने पर्यग्रजलदपभे ।
 रराज वपुषा शुभ्रस्तिगिरौघ्रे यथा शशी २७ लोमलेनोवसिक्तेन
 भुजगाभोगवर्तिना । तथा भुजाग्रश्लिष्टेन मुसलेन च भास्वता २८
 स मन्तो वलिना श्रेष्ठो रराजाधुणितानगः । शैशरीपु त्रियापासु
 यथा स्वेदालसः शशी ॥ २९ ॥ रामस्तु यमुनागाह स्नातुमिच्छे
 गहानदि । एहि मामभिगच्छ त्वं रूपिणी सागररूपे ॥ ३० ॥
 सकर्षणस्य गच्छोक्तं भारती परिभूय सा । चाभ्यवर्तत तं देशं
 तीस्वभावेन गोहिताना ३१ ॥ ततश्चुक्रोधं बलवानापोऽपद-

हुए कमल उत्पल आदि लो आये मुहूर्तमे कुब्ज दके हुए सुन्दर
 केश वाले कानमे लटकते हुए पीतचन्दनसे गीले मुखसे और
 वनमालासे मुशोषित वनस्पतसे बलराम कैलाससे शोभा पाने
 पाले मन्दराचलकी समान शोभा पाने लगे ॥ २४—२६ ॥
 जल बरसानेको उद्यत मेघकी समान नीले वस्त्रोंको धारण करने
 वाले शुभ शरीरके कारण बलरामजी अंधकारके अधर्म विना-
 जमान चन्द्रमाकी समान दीखते थे ॥ २७ ॥ उनकी सर्पकी
 समान भुजामें लोमले था और भुजाके अग्रभागमें मकाशवान्
 मूलले विराज रहा था ॥ २८ ॥ जैसे शरद ऋतुकी तीन महर
 (चन्द्रमाकी रखने) वाली रात्रियां खेद (भीस) से अलस
 दीखता हुआ चन्द्रमा दीखता है, इसी प्रकार जिनके नेत्र घूम
 रहे थे वह बलवानामे श्रेष्ठ पदमत्त बलरामजी शोभा पाने लगे २९
 तदनन्तर बलरामजीने यमुनाजीसे कहा, कि-ह गहानदिमें स्नान
 करना चाहता हूँ अतः हूँ समुद्रगामिनि । तू रूपिणी वन कर आ
 (और मेरे स्नान करनेके अनन्तर) मेरी सेवा कर परन्तु यमुना
 जी स्वभावसे मोहमें पड़ गई और यह बाणी मत्त पुरुषने कही है

तमीरितः । चकार सद्गलं हस्ते कर्पणाभोमुखं बली ॥ ३२ ॥
 तस्यामुपरि मेदिन्यां पेतुस्तामरसस्रजः । मुमुक्षुः पुष्पकोशैश्च
 वासरेणवरुणं जलम् ॥ ३३ ॥ स हलेन नताग्रेण कूले गृह्य गद्दा-
 नदीम् । चकर्प यमुनां रागो व्युत्थितां वनितागिव ॥ ३४ ॥ सा
 विद्वलजलस्रोता हृदप्रस्थितसंचया । व्यावर्तत नदी भीता-हल-
 मार्गानुसारिणी ॥ ३५ ॥ लांगलादिष्टवर्त्मा सा वेगगा-चक्र-
 गामिनी । संकर्षणभयत्रस्ता योगेवाकुलतां गता ॥ ३६ ॥ पुलि-
 नश्रोणिर्विवौष्टी मृदितैस्तोयतादितैः । फेनमेखलसूत्रैश्च द्विन्नैरम्बु-
 दगामिनी ॥ ३७ ॥ तरङ्गविपमापीडा चक्रवाकान्मुखस्तनी । वेग-

यह समझ उनकी बाणीकी उपेक्षा कर उनके पास न गई ३१
 तब तो मदसे प्रेरित बलराम क्रोधमें भर गए और उन बली
 पुरुषने अपने हलका मुख खेंचनेके लिये नीचेको कर लिया ३२
 जब बलदेवजी गमुनाजीको खेंचने लगे देवताओंकी मालाओंके
 साथ बिन्दुएँ पृथ्वी पर पड़ने लगीं और पुष्पोंके कोशोंमेंसे
 सुगन्धित परागसे श्रवण (गदिरारूपी) जल पड़ने लगा ॥ ३३ ॥
 तब बलरामजी अपने हलके अग्रभागको झुकाकर उस नदीके
 तटपर रख यमुनाको व्युत्थित स्त्रीकी समान खेंचने लगे ॥ ३४ ॥
 उस समय उसके स्रोत विद्वल होगए और उसके तालावोंके किनारे
 ढीले होने लगे और वह नदी भयभीत होकर हलके मार्गका
 अनुसरण कर लौटने लगी ३५ लांगलमे उसका मार्ग बन रहा
 था और वह वेगसे भँवरोके साथ वह रही थी, और वह संकर्षण
 के भयसे स्त्रीकी समान व्याकुल होगई ॥ ३६ ॥ उसके तट
 उसकी थोणी थी, उसके ओठ रक्तपद्मएहलकी समान थे, और
 वह समुद्रकी और वह रही थी, और वह जलसे ताड़ित फेनरूपी
 मेललाओंसे द्विन्न भिन्नसा होरही थी, ३७ वह तरंगरूपी विपम
 आपीड़को धारण कर रही थी, और उन्मुख चक्रनाकरूपी स्तनों

गम्भीरवक्रांगी त्रस्तमीनविभूषणा ॥ ३८ ॥ सितहंसेक्षणापंगी
 काशन्नौपोज्जिताम्बरा । तीरजोद्धृतरेशान्ता जलरखलित
 गामिनी ॥ ३९ ॥ लाङ्गलोलिखितापाद्गी क्षुपिता सागरङ्गमा ।
 मत्तेव कुटिला नारी राजमार्गेण गच्छती ॥ ४० ॥ कृष्यते मति-
 वेगेन स्रोतस्खलितगामिनी । उःमार्गाग्नीतमार्गासा येन वृन्दा-
 वनं वनम् ॥ ४१ ॥ वृन्दावनस्योमध्येन सा नीता यमुना नदी ।
 रोरूपगणेषु खगैरन्विता तोपवासिभिः ॥ ४२ ॥ सा यदा समति-
 क्रान्ता नदी वृन्दावनं वनम् । तदा स्त्रीरूपिणी भूत्वा यमुना
 रामप्रतीत् ॥ ४३ ॥ प्रसीद नाथ भीतास्मि प्रतिलोमेन । कर्मणा ।

को धारण कर रही थी, वेगगंभीररूपे वह सुगरूप अंगको धारण
 कर रही थी, और वह त्रस्तमीनरूप भूषणको धारण कर रही थी
 श्वेत हंसरूपी नेत्रोंके चञ्चल कटाक्षको धारण कर रही थी,
 और काशरूपी, रेशमी बस्त्रोंको धारण कर रही थी उसके तटे
 पर, उत्पन्न होने वाले, उड़ते हुए वेशोंको धारण कर रही थी
 और वह जलरूपी स्खलितगतिको धारण कर रही थी, और
 वह जलरूपी स्खलित गतिसे चल रही थी ॥ ३९ ॥ उसका
 अपाङ्ग लांगलसे छिल रहा था, और वह सागरगामिनी क्षुब्ध
 होरही थी, और राजमार्गसे जाती हुई कुटिल स्त्रीकी समान
 प्रतीत होरही थी । ४० । वह स्खलितगामिनी अतिवेगसे खिच
 रही थी और उन्मार्गसे वृन्दावन वनकी ओर खचेड़ी जा रही
 थी ॥ ४१ ॥ जिस समय यमुना नदीको वृन्दावनके बीचमें
 नचेड़ा गया, उस समय वह जलवर पक्षियोंके शब्दोंके
 कारण, रोती हुई सी प्रतीत होती थी ॥ ४२ ॥ जब वह
 नदी वृन्दावनमें पहुँची तब वह स्त्री का रूप धारण करके
 बलरामनीसे कहने लगी कि— ॥ ४३ ॥ है नाथ ! आप
 प्रसन्न हूजिये ! आपके इस प्रतिलोम करने वाले अर्थात् खलते

विपरीतगिदं रूपं तोयं च मम जायते ॥ ४४ ॥ असत्यहं नदी-
 गम्ये रौहिणेय, त्वगा कृता । सुमसन्नपता नित्यं भव त्व सुर-
 सत्तम-॥४५॥ कर्पणेन महाबाहो स्वमार्गव्यभिचारिणी । मासां
 मां सागरे पूर्व सपत्न्यो, वेगवर्तिनाः ॥४६॥ फेनहासैर्हसिष्यन्ति
 तोयव्यावृत्तगापिनीम् । प्रसादं कुरु मे, वीर याचें त्वां कृष्णपूर्वज
 कर्पणायुध कृष्णस्मिः रोपोऽयं - विनिवर्त्यताम् ॥ - मूर्ध्ना गच्छामि
 चरणौ त्वैवा लागलायुध ॥ ४८ ॥ मार्गमादिष्टमिच्छामि च
 गच्छामि महाभुज । वैशम्पायन उवाच । प्रणतावन्तां दृष्ट्वा यमुना
 लागलायुधः । मत्सुवाचार्यवधुं मदवलोन्त इदं वचः ॥४९॥
 लागलादिष्टमार्गा-त्वमिमं-मियदर्शने । देशगन्तुप्रदानेन, सावय-
 म्नाखिलं शुभे ॥५०॥ एतत्ते सुभ्रु सन्देशः अथिनः सागररूपे ।

बहाने वाले यर्मसे मैं डर रही हूँ, मेरा रूप और जल इस समय
 विपरीत हो रहा है ॥ ४४ ॥ हे रौहिणेय ! तुमने मुझे नदियों
 में असती कर दिया हे सुरसत्तम ! अब आप अपने मनको प्रसन्न
 करिये ४५ हे महाभुज ! आपके खेंचनेसे मेरे मार्गमें व्यभिचार
 हो गया है, मैं उल्टी चली हूँ, अतः मेरी सपत्नियों समुद्रमें पहिले
 पहुँच कर फेनोंसे हँसकर मेरा हास्य करेंगी, अब हे बलदेवजी !
 आप मेरे ऊपर कृपा करिये, मैं आपसे मार्गना कर रही हूँ ४६-४७
 हे खेंचनेके आयुध वाले ! आपने मुझे बहुत खेंचा अब आप
 अपने रोपको दूर करिये हे लागलायुध ! अब मैं आपके चरणों
 में मस्तक नमाता हूँ ४८ अब मैं आपके मार्ग बतानेकी प्रतीक्षा
 कर रही हूँ, वताइये, मैं कहा जाऊँ, वैशम्पायनजीने कहा,
 कि यमुनाको प्रणयसे नम्र हुई देख कर पद्मसत्त लागलायुध
 बलरामजीने समुद्रपत्नी यमुनासे कहा कि-॥ ४९ ॥ हे शुभे !
 हे मियदर्शने ! तू मेरे लागलमे बनाये, मार्गसे मेरे बताये देशमें
 जाऊर-चस सारे देशको जलसे डुना दे ॥ ५० ॥ हे सागर

शान्तिं व्रज महाभागो गन्पतां च यथासुखम् ॥ ५१ ॥ यावत्
 स्थास्यति लोकोऽयं तावत् स्थास्यतु मे गजः । यमुनाकर्षणं दृष्ट्वा
 सर्वे ते व्रजवासिनः ॥ ५२ ॥ साधु साध्विति, रामाय प्रणामं
 चक्रे तदा । ता विमृश्य महाभागां तृश्च, सर्वान् व्रजौकसः ५३
 ततः सचिन्त्य गन्त्वा रामः, प्रहर्ता वरः । पुनः, प्रतिजगामाशु
 मधुरां रोहिणीसृतः ॥ ५४ ॥ स गत्वा, मधुरां रामो, भवने मधु-
 सूदनम् । परिवर्तमानं ददृशे पृथिव्यां तारमव्ययम् ॥ ५५ ॥ तथै-
 वा-नन्ववेणेण सोपसृष्टो जनादनम् ।, प्रत्यग्रवनपालेन, वक्षसा-
 ऽभिविरागिता ॥ ६५ ॥ स, दृष्ट्वा तूर्यमाया-त । रामं, लागल-
 पारिणम्, । सहसोत्थाप गोविन्दो ददावासनघुनमम् ॥ ५७ ॥
 उगच्छिं तदा रामं पपञ्च कुशलं व्रजे । वा-न्धवेषु च सर्वेषु, गोपु-
 चैव जनार्दनः ॥ ५८ ॥ प्रत्युवाच ततो रामो भ्रातरं साधुभापि-

द्रमे । यह तु भ्रमे मने संदेशे यह दिया, हे महाभागो ! हे सुभ्र ।
 अब तु शान्ति होजा और इच्छानुसार चली जाना ॥ ५१ ॥
 जब तक यह संसार रहे तब तक मेरा यश रहे, सत्र व्रजवासी
 यमुनाजीके कर्षणको देखकर साधु २ कह कर, पलरामको प्रणाम
 करने लगे तदनन्तर उन महाभाग गोपोंको और गोपियोंको
 तहाँ ही छोड़, महार करने बालामें श्रेष्ठ राम अपने मनेमें विचार
 कर फिर शीघ्रतासे मधुरापुरीको चले गए ॥ ५२-५४ ॥ चल
 रामजीने मधुरामें भवनमें जाकर देखा तो सौररूप अन्युत मधु
 सूदन पृथ्वीमें टहल रहे हैं ५५ उस समय वनमालासे विराज-
 मान वक्षः स्थल बाले बलदेव भी पथिकके वेगमें ही तहाँ पहुँच
 गए ५६ लागल गरी पलरामजीको शीघ्रतासे आते देख गोविन्द
 ने शीघ्रतासे उठ कर उन्हें श्रेष्ठ आसन दिया ५७ तदनन्तर
 जनार्दनने रामसे व्रजके वान्धव और सकल गौर्वाँकी कुशल
 बुझी ५८ तदनन्तर मनोहर गोपण करने बाले अपने भ्रातासे

एव । सर्वत्र कुशलं कृष्ण येषां कुशलमिच्छसि ॥ ५६ ॥ तत-
स्तपोर्विचित्राश्च पौराण्यरचाभवन कथाः । वसुदेवाग्रतः पुण्या
रामकेशवयोस्तदा ॥ ६० ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि यमुनाकर्षणं
नाम पट्टनत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

वैशम्पायन उवाच । एतस्मिन्नन्तरे माता लोकपाट्टिका
नराः । चक्रायुधं सर्वं लोकपालेष्टीपमम् । तेष्वत्ययिकशंसीषु
लोकपाट्टिकेष्विव । कृतसंज्ञा यदुःश्रेष्ठाः समेताः कृष्णसंसदि
समागतेषु सर्वेषु यदुष्टेषु संसदि । पाट्टिका नराः पाहुः-
पार्थिवात्ययिकं वचः ॥ ४ ॥ जनार्दन नरेन्द्राणां पार्थिवानां
समागमः । भविष्यन्ति त्रिनीशानां समूहानित्यनेकशः ॥ ४ ॥
त्वरितास्तत्र गच्छन्ति नानाजनपुरेश्वराः । कुण्डने पुण्डरी-
कान्त भोजपुत्रस्य शासनात् ॥ ५ ॥ प्रकाशं स्म कथास्तत्र श्रूयन्ते

वत्सरामने कथा, कि-हे कृष्ण ! आप जिनकी कुशल चाहते हैं,
उनकी सर्वत्र कुशल है ॥ ५६ ॥ तदनन्तर राम और केशव वसु-
देवजीके समाने मानो, और विचित्र कथाएँ कहने लगे ॥ ६० ॥
द्विपालीसर्वाँ अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥
वैशम्पायनजीने कहा, कि-इसी समय लोकपालोंके गृहकी
समान चक्रायुध नामक घरमें सब खबर देने वाले मनुष्य (दूत)
आगए । १ । उन विरोधको कहने वाले दूतोंके आने पर ईगित
के अनुसार सब यादवश्रेष्ठ सभामें इकट्ठे होगए ॥ २ ॥ जब
सभामें सब मुख्य २ यादव आगए उस समय दूतोंने राजाओं
का नाश कराने वाला वचन कहा ॥ ३ ॥ हे पुण्डरीकान्त !
कुण्डनपुरमें भोजपुत्रके शासनमें अनेक देशोंके राजे तहाँ फुर्तीसे
जारहे हैं, हे जनार्दन ! तहाँ पर बहुतसे राजाओंका समागम
होगा और तहाँ कुण्डके कुण्ड राजे आवेंगे ॥ ४ ॥ ५ ॥ प्रकट

मनुजेरिताः । रुक्मिणी किल नामास्ति रुक्मिणीः प्रथमा स्वसाध
 भावी स्वयं वरस्तत्र तस्याः किल जनार्दन । इत्यर्थमेते सवला
 गच्छन्ति मनुजाधिपाः ॥७॥ तस्यास्त्रैलोक्यसुन्दर्यास्तृतीयेऽहनि
 यादव । रुक्मभूषणभूषिण्या भविष्यति स्वयम्बरः ॥ ८ ॥ राज्ञां
 तत्र समेतानां इत्यश्वरथगामिनाम् । द्रुपामः शतशस्तत्र शिवि-
 राणि महात्मनाम् ॥९॥सिंहशार्दूलदत्तानां मत्तद्विरदगामिनाम् ।
 सदा युद्धमियाणां हि परस्परमर्षिणाम् ॥१०॥ जयाप शीघ्रं
 सहिता बलौघेन समन्विताः । निरुद्धाः पृथिवीपालाः किमेकांत-
 चरा वयम् । निरुत्साहा भविष्यामो गच्छामो यदुनन्दनम् ११
श्रुत्वा तत्र केशवो वाक्यं हृदि शुन्यमिवापितम् । निर्जगाम यदु-
रूपसे मनुष्य इस कथाको तहाँ कहते फिरते हैं, कि-तहाँ रुक्मिणी
 नाम वाली, रुक्मीकी एक बड़ी बहिन है ॥ ६ ॥ हे जनार्दन !
 तहाँ उसका स्वयंवर होने वाला है इसी लिये ये राजे अपनी
 सेनाओंसहित तहाँ जा रहे हैं ॥ ७ ॥ हे यादव ! तहाँ पर सुवर्ण
 के आभूषणोंसे विभूषित त्रिलोक सुन्दरी रुक्मिणीका तीसरे दिन
 स्वयंवर होने वाला है ॥ ८ ॥ तहाँ पर आये हुए हाथी घोड़े
 और रथों पर सवारी करने वाले महात्मा राजाओंके-सैकड़ों
 शिविरोको (हम) देखेंगे ९ (और तहाँ पर)सिंह और शार्दूल
 की समान घमण्डी और मदयत्त हाथीकी समान चलने वाले
 सर्वदा युद्धको ही प्रिय समझने वाले और परस्पर अमर्ष
 रखने वाले (राजाओंके शिविरोको हम देखेंगे) ॥ १० ॥
 ये राजे अपनी २ सेनाओंको लेकर (रुक्मिणीको पानेकी
 इच्छासे दूसरे राजाओंको)जीतनेके लिये इकट्ठे हो रहे हैं फिर
 हम क्यों एकान्तचारी (भीलोंकी समान) निरुत्साह होंगे और
 यदुनन्दनके पास जावें, (और उनको लेकर तहाँ जावें, यह
 विचार कर आपके पास आये हैं) ॥ ११ ॥ केशवने इस बात

एम् । सर्वत्र कुशलं कृष्ण येषां कुशलमिन्द्रसि ॥ ५६ ॥ तत-
स्तपोर्विचित्राश्च पौराण रचाभवन कथाः । वसुदेवाग्रतः पुण्या
रामकेशवयोस्तदा ॥ ६० ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि यमुनाकर्षणं
। । नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

वैशम्पायन उवाच । एतस्मिन्नन्तरे माता लोकमाट्टतिका
नराः । चक्रायुधगृहं सर्वे लोकपालपृथोपमम् । तेष्वत्ययिकशंसीषु
लोकमाट्टतिकेष्विद । कृतसंज्ञा यदुःश्रेष्ठाः समेताः कृष्णसंसदि
समागतेषु सर्वेषु यदुष्टेषु संसदि । प्राट्टिका नराः प्राहुः
पार्थिवात्ययिक वचः ॥ ३ ॥ जनार्दन नरेन्द्राणां पार्थिवानां
समागमः । भविष्यति क्षितीशानां समूहानित्यनेकशः ॥ ४ ॥
त्वरितास्तत्र गच्छन्ति नानाजनपुरेश्वराः । कुण्डने पुण्डरी-
कान्त भोजपुत्रस्य शासनात् ॥ ५ ॥ प्रकाशं स्म कथास्तत्र श्रूयन्ते

वत्तरामने कहा, कि-हे कृष्ण ! आप जिनकी कुशल चाहते हैं,
उनकी सर्वत्र कुशल है ॥ ५६ ॥ तदनन्तर राम और केशव वसु-
देवजीके समाने माचोन और विचित्र कथाएँ कहने लगे ॥ ६० ॥

द्विपालीसर्वो अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ छ छ छ
वैशम्पायनजीने कहा, कि-इसी समय लोकपालोंके गृहकी
समान चक्रायुध नामक घरमें सब खबर देने वाले मनुष्य (दूत)
आगए । १ । उन विरोधको कहने वाले दूतोंके आने पर इंगित
के अनुसार सब यादवश्रेष्ठ सभामें इकट्ठे होगए ॥ २ ॥ जब
सभामें सब मनुष्य २ यादव आगए उस समय दूतोंने राजाओं
का नाश कराने वाला वचन कहा ॥ ३ ॥ हे पुण्डरीकान्त !
कुण्डनपुरमें भोजपुत्रके शासनमें अनेक देशोंके राजे तहाँ फुर्तीसे
जारहे हैं, हे जनार्दन ! तहाँ पर बहुतसे राजाओंका समागम
होगा और तहाँ कुण्डके कुण्ड राजे आवेंगे ॥ ४ ॥ ५ ॥ प्रकट

नुजेरिताः । रुक्मिणी किल नामास्ति रुक्मिणः प्रथमा स्वसाक्षिणी स्वयं चरस्तत्र तस्याः किल जनार्दन । इत्यर्थमेते सबला च्छन्ति मनुजाधिपाः ॥७॥ तस्यास्त्रैलोक्यसुन्दर्यास्तृतीयेऽहनि दिव । रुक्मभूषणभूपिण्या भविष्यति स्वयम्बरः ॥ ८ ॥ राज्ञां च समेनानां हस्त्यरवरथगामिनाम् । द्रक्ष्यामः शतशस्तत्र शिवि-
 णि महात्मनाम् ॥९॥ सिंहशार्दूलदत्तानां मत्तद्विरदगामिनाम् ।
 दा युद्धमियाणां हि परस्परमर्षिणाम् ॥१०॥ जयाय शीघ्रं
 हिता बलौघेन समन्विताः । निरुद्धाः पृथिवीपालाः किमेकांत-
 रा वयम् । निरुत्साहा भविष्यामो गच्छामो यदुनन्दनम् ११
स्त्वैतत् केशवो वाक्यं हृदि शुभ्यमिवापितम् । निर्जगाम यदु-
पसे मनुष्य इस कथाको तहाँ कहते फिरते हैं, कि-तहाँ रुक्मिणी
म वाली, रुक्मीकी एक बड़ी बहिन है ॥ ६ ॥ हे जनार्दन !
हाँ उसका स्वयंवर होने वाला है इसी लिये ये राजे अपनी
नाओंसहित तहाँ जा रहे हैं ॥ ७ ॥ हे पादव ! तहाँ पर सुवर्ण
आभूषणोंसे विभूषित त्रिलोक सुन्दरी रुक्मिणीका तीसरे दिन
स्वयंवर होने वाला है ॥ ८ ॥ तहाँ पर आये हुए हाथी घोड़े
और रथों पर सवारी करने वाले महात्मा राजाओंके, सैकड़ों
शत्रुओंको (हम) देखेंगे ९ (और तहाँ पर) सिंह और शार्दूल
की समान घमण्डी और मदमत्त हाथीकी समान चलने वाले
बिदा युद्धको ही मिय सगभने वाले और परस्पर अमर्ष
खने वाले (राजाओंके शत्रुओंको हम देखेंगे) ॥ १० ॥
राजे अपनी २ सेनाओंको लेकर (रुक्मिणीको पानेकी
उद्देशसे दूसरे राजाओंको) जीतनेके लिये इकट्ठे हो रहे हैं, फिर
म क्यों एकान्तचारी (भीलोंकी समान) निरुत्साह होंगे और
दुनन्दनके पास जावें, (और उनको लेकर तहाँ जावें, यह
चार कर आपके पास आये हैं) ॥ ११ ॥ पेशवने इस बात

श्रेष्ठो यद्गानां संहिता श्रेष्ठोः ॥ १२ ॥ यादवास्तै, बलोदग्राः सर्वे
 संग्रामतालिंसाः । निर्ययुः स्यन्दनवरैर्गर्वितास्त्रिदशा इव ॥ १३ ॥
 बलोदग्रेण निर्युक्तेन हरिरीशानसम्पतः । चक्रोद्यतकरः कृष्णो
 गद्रापाणिर्धरोद्यतः ॥ १४ ॥ यादवाश्चापरे तत्र ; वामुदेवाः क्रुपा-
 यिनाः । रथैः सद्यस्त्रसंकाशैः किंकिणीपतिनादितैः ॥ १५ ॥ उग्र-
 सेनं तु गोविन्दोऽप्राढ निश्चितदर्शनः । निष्ठ त्वं नृपशार्दूल
 भ्रात्रा मे सहितोऽनघ ॥ १६ ॥ क्षत्रियविभूतिप्रज्ञा शास्त्र-
 निश्चितदर्शनाः । पुत्रीं शून्यसंयिगां वीरजघन्येनाभिपालयन् १७
 अस्माकं शंकिनाः सर्वे जरासन्धवशोऽनुगाः । शोदन्ते सुखि-
 नस्तत्र देवलोके यथाऽपराः ॥ १८ ॥ जगन्मायतं प्रवाच । तस्य

को मुनी तां वह वाक्य उनके हृदयमें काँटासा, लग गया और वे
 यादवश्रेष्ठ यादवोंके सेनादलका साथमें लौकर चले ॥ १२ ॥
 गर्वमें भरे हुए देवताओंकी समान संग्रामकी लालसा वाले अति-
 बलीयादव नर्योंमें बैठ कर चले ॥ १३ ॥ श्रीकृष्णके आगे सेना
 चले रही थी उस समान हाथमें चक्र और आयुधोंको धारण
 करने वाले कृष्ण ईशान (शिव) की समान प्रतीत होते थे १४
 वामुदेवके अनुयायी दूसरे यादव भी घण्टियोंसे भजनकारते हुए
 सूर्यकी समान प्रकाशवान् रथोंमें (बैठ कर चले) ॥ १५ ॥ उस
 समय निश्चिन बात कहने वाले गोविन्दने उप्रसेनमे कहा, कि-
 हे निष्पाप राजशार्दूलायाप मेरे भाईके साथ यहाँ ही रहिये १६
 क्षत्रिय कपटसे वृद्धि पाया करते हैं और वे राजनीतिकी जानने
 वाले होते हैं, अतः आप इस शून्य पुरीकी कपटसे रक्षा करें जरा-
 सन्धके वशमें रहने वाले उसके अनुयायी सब राजे हमसे शंकित
 रहते हैं, अब वह तहाँ देवलोकमें स्थित देवताओंकी समान सुख
 भोगरहे हैं १७ वैशम्पायनजीने कहा कि-गहापशस्वी भोजराजने
 श्रीकृष्णके इस वचनकी सुनकर श्रीकृष्णके स्नेहवश यह विद्वान्

तद्वचनं श्रुत्वा भोजरोगो महायथाः कृष्णस्नेहेन विकृतं वभापे
 वचनो मृतम् ॥ १९ ॥ कृष्ण कृष्ण महावाहा यदूना नन्दिवर्धन ॥
 श्रयती वदहे त्वय चक्ष्यामि रिपुसुदन ॥ २० ॥ त्वया विहीनाः
 सर्वे सा न शक्ताः सुखमासितुम् ॥ पुरेऽस्मिन् विषयान्ते वा पति-
 हीना इव स्थिराः ॥ २१ ॥ त्वत्सनाथा वयं तान् त्वद्वाहुवल्-
 माश्रिताः । विभीषो न नरेन्द्राणां सन्द्राणांमपि मानदरे विज-
 याय यदुश्रेष्ठ यत्र यत्र गमिष्यसि । तत्र त्वं सहितोऽस्माभि-
 र्गच्छेथा यादवर्षेण ॥ २२ ॥ तत्रै राज्ञो नचैः श्रुत्वा सस्मित
 देवकीसुतः । यथेष्टं भवतामद्य तयो कर्तव्यमप्यसंशयम् ॥ २३ ॥
 वैशम्पायन उवाच । प्रवृष्टत्वा तु वी कृष्णो विजयांशु रथेन
 तौ । भीष्मरुद्रपुत्रौ मासो लोहितायतितास्करे ॥ २४ ॥ मासे
 राजसगाजे तु शिविराकीर्णभूतले । इन्द्रं मु विपुलं दृष्ट्वा राजसी

वचनमना कहा शि ॥ १९ ॥ हे कृष्ण ! हे कृष्ण ॥ हे महाशुन !
 हे यादवोंके आनन्दको बढ़ानेवाले । हे रिपुसुदन ! इस समय
 मैं जो-बान बहना हूँ उसको आप सुनिये २० आपके चले जाने
 पर आपसे रहित होकर हण पतिहीन स्थियोंकी समान यहाँ पुरे
 में सुखपूर्विक नहीं रह सकेंगे २१ हे मानद तान आपसे हण
 सनाथ है, आपके भुजबलके आश्रयसे रहने हुए इन्द्र सहित
 राजाओंसे भी हमें कुछ डर नहीं लगता २२ हे यादवश्रेष्ठ !
 आप जहाँ २३ पर विजय करने के लिये जायें, हे यादवश्रेष्ठ !
 तहाँ मैं आप हारे साथ चलिये ॥ २४ ॥ उस विराजाके वचनको
 सुन कर देवकीपुत्र मुस्कंयायो भीरु कहा कि-जैसी आपकी
 इच्छा है उसी प्रकार मैं निःसन्देहाप्येकरा करूँगा २४ वैशम्पा-
 यनजीने कहा, कि- इस प्रकार कह कर श्रीकृष्ण श्रीव्रजामी
 नथ पर सवार होकर चले और जब मूर्ध रक्त होगया उस समय
 भीष्मजके घर पहुँच्यार्य ॥ २५ ॥ तहाँ मृश्वी शिविरोंसे दक

तनुमाविशत् ॥२६॥ विनासनार्थं भूपानां प्रकाशार्थं पुरातनम् ।
मनसा चिन्नयागास नैनतेयं महाबलम् ॥ २७ ॥ ततश्चितित-
मात्रस्तु विदित्वा चिनतात्मजः । सुखलक्ष्यं वपुः कृत्वा निलिच्ये
केशदान्तिके ॥ २८ ॥ तस्य पक्षनिपातेन पवनोद्धान्तकारिणा ।
कम्पितो मनुजाः सर्वे न्युवजारच पतिता भुवि ॥२९॥ गरुडाभि-
हताः सर्वे प्रचेष्टन्तो यथोरगाः । तान् सन्निपतितान् दृष्ट्वा कृष्णो
गिरिरिवाचलः ॥ ३० ॥ स राजा पक्षपातेन मेने पतगसत्तमम् ।
ददर्श गरुडं प्राप्तं दिव्यस्रगब्रुलेपनम् ॥३१॥ पक्षेण तेन पृथिवीं
चालयन्तं मुहुर्मुहुः । पृष्ठासक्तैः महरणैर्लेलिहन्तमिधोरगैः ३२
वैष्णवं हस्तसंश्लेषं मान्यमानमवाङ्मुखम् । चरणाभ्यां प्रकर्षतं

रही थी ऐसे राजसमाजमें जाकर बड़े भारी रंगस्थलको
देख कर श्रीकृष्णने राजसी वेष धारण कर लिया ॥ २६ ॥
उस समय श्रीकृष्णने राजाओंको डरानेके लिये और अपने
प्राचीन वृत्तान्तको प्रकाशित करनेके लिये मनमें महाबली विनता-
नन्दनका स्मरण किया २७ विनतानन्दन गरुड़जी श्रीकृष्णके
विचारते ही अपने शरीरको सुखसे लक्ष्यमें आने वाला बना
कर केशवके समीपमेंको चले २८ पवनमें भी गड़बड़ी डालने
वाले उनके पंखोंके निपातसे सब कॉप गए और मनुष्य अधो-
मुख होकर नीचेको गिर पड़े २९ तब वे सब गरुड़से दवाये
हुए सपोंकी समान चेष्टा करने लगे, उनको गिरा हुआ देख
कर कृष्ण पर्वतकी समान अटलखड़े रहे ३० उस राजाने दिव्य
चंदन और मालाधारी गरुड़को आये हुए देख कर पक्षपातसे
उस पक्षिश्रेष्ठका सत्कार किया ३१ वह अपने पंखसे पृथ्वीको
वारवार डगमगा रहे थे, उनकी पीठ पर जीभ लपलपाते सपों
की समान आयुध रक्ते हुए थे ३२ विष्णु उन पर हाथ फेर
रहे थे, और उनका सत्कार कर रहे थे, उस समय गरुड़का मुख

पाण्डुरं भोगिनां वरम् ॥ ३३ ॥ हेमपत्रैरुपचितं धातुमन्तमिवा-
चलम् । अमृतारम्भहर्तारं द्विजिह्वेन्द्रविनाशनम् ॥ ३४ ॥ त्रासनं
दैत्यसंघानां वाहनं ध्वजलक्षणम् । तं दृष्ट्वा सध्वजं प्राप्तं सचिवं
सांपरायिकम् ॥ ३५ ॥ धृतिमन्तं गरुत्मन्तं जगाद मधुसूदनः ।
दृष्ट्वा परमसंहृष्टः स्थितः देवमिवापरम् ॥ ३६ ॥ तुल्यसामर्थ्यया
वाचा गरुत्मन्तमिव स्थितम् । श्रीकृष्ण उवाच । स्वागतं खेचर-
श्रेष्ठ सुरसेनारिमर्दन । विनताहृदयानन्द स्वागतं केशवमिप ३७
वृज पित्ररथश्रेष्ठ कैशिकस्य निवेशनम् । चयं तत्रैव गत्वाऽद्य
प्रतीक्षामः स्वयम्बरम् ॥ ३८ ॥ राज्ञां तत्र समेतानां हस्त्यरथ-
रथगामिनाम् । द्रुचगामः शतशस्तत्र समेतानां महात्मनाम् ३९

नीचेको था, और वह अपने चरणोंसे रवेत वर्णके श्रेष्ठ सर्पको
कुरेद रहे थे ३३ धातु वाले पर्वतकी समान उनके पंखोंमें सुवर्ण
पुर रहा था उन्होंने आरम्भमें अमृत छीना था, और वे सर्पोंका
नाश करते रहते थे ३४ वे संघ दैत्योंके भ्रूणोंको पीडा देते थे,
(विष्णुके) वाहन थे और उनका चिन्ह ध्वजमें रक्खा जाता
था आपत्तिमें हित करने वाले बुद्धिकी सहायता देने वाले धैर्य-
धारी गरुड़जीको ध्वजके साथ आये हुए देख कर मधुसूदन उन
से शर्तिलाप करने लगे और उनको दूसरे देवताकी समान
देख कर परम प्रसन्न हुए ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ उस समय
उन्होंने अपनी शक्तिके अनुकूल वाणीसे खड़े हुए गरुड़जीसे
कहा श्रीकृष्णने कहा; कि-हे देवताओंकी सेनाके शत्रुओंको
मर्दन करने वाले । हे आकाशचारी पक्षियोंमें श्रेष्ठ । आपका
स्वागत है । हे विनताहृदयानन्द । हे केशवमिप । आप
का स्वागत है ॥ ३७ ॥ हे पत्नीरूप रथोंमें श्रेष्ठ । अपि कैशिक
के अर्थात् भीष्मकेके पिताके घरमें चलिये; हम आज तहाँ पहुँच
कर स्वयंवरकी प्रतीक्षा करेंगे ॥ ३८ ॥ तहाँ पर हाथी रथ और

एवमुक्त्वा महाबाहुर्वचतेयं महाबलम् ॥ जगामाथ पुरीं कृष्णः
 कैशिकस्य महात्मनः ॥ ४० ॥ चीनेनेयसखः श्रीमान् पादवैश्व
 पंहास्यैः ॥ विदर्भनगरीं प्राप्ति कृष्णे देवकिनन्दने ॥ ४१ ॥ हृष्टः
 प्रमुदिताः पुरावैनिवासांयोगचक्रमुः ॥ सर्वे शस्त्रायुधरा राजानो
 पलशालिनः ॥ ४२ ॥ श्वैशस्पायन देवाचतं ॥ एतस्मिन्नेव काले
 तुः रागाः नयविशारदः ॥ कैशिकस्ताः उेत्यायेः अहृष्टेनान्त-
 राधिना ॥ ४३ ॥ अर्धपाचमनं दत्त्वा सराजा कैशिकः स्वयम् ॥
 सक्त्वा विधिबन्त कृष्णं स्वपुरं संवेशयत् ॥ ४४ ॥ पूर्वमेव तु
 कृष्णाय कारितं दिव्यमन्दिरम् ॥ विवेश पल्लः श्रीमान् कैलास
 शंकरो यथा ॥ स्वःशंपानादिस्तनौ वैरवितो वासवानुजः ॥ ४५ ॥

घोडां पर-सवारी- करतु जाले सहस्रा राजाया-को एकत्रित हुए
 देखोगे ॥ ३६ ॥ महासुत-श्रीकृष्ण- महाबली- गरुडगीसे इस
 प्रकार कह कर महात्मा कैशिकके (पुर) घरकी ओर बढ़े ४०
 उनके साथ-महारथी-पादवाये और उनके मित्र-गरुडगी थे,
 देवकीनन्दन श्रीकृष्णके विदर्भपुरीमें पहुँचने पर- (उनके साथके)
 शश्व और- आयुध-वारी- सब राजे-मसन्न- दोगपर और- मसन्न
 होते हुए अपने-२-बसनेकी-युक्ति-करने-लगे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥
 वीशास्पायनगीने कहा- कि-नीतिशास्त्रविशारद राजा कैशिक
 परम-मसन्न हुआ और वह मसन्नमनसे-उठ-कर तहाँ आया ४३
 और-बसने अपने आप श्रीकृष्णको अर्ध-आचमन आदि दिया
 इस प्रकार उनका सत्कार करके-उसने उनका नगरमें मवेश
 करवाया ४४ उसने श्रीकृष्णके लिये पहिलेसे ही दिव्य मंदिर बना
 रखा था शंकर जैसे कैलासमें श्रुसते हैं, उसी प्रकार उस गवन
 में बलमहिन श्रीकृष्णजी श्रुस-गए, तहाँ पर इन्द्रके छोटे-भाई
 श्रीकृष्णका साथ-सामग्री-पेय-सामग्री और स्नान देकर सत्कार
 किया गया ॥ ४५ ॥ इस प्रकार (कैशिकके) स्नेहपूर्ण चित्तसे

सुखेन उपितः कृष्णस्तस्य राज्ञो निवेशने । पूजितो बहुमानेन
स्नेहपूर्णेन चेतसा ॥ ४६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरियंशे, विष्णुपर्वणि, रुक्मिणीस्वयं-
वरे सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥

दौशम्पायन उवाच । ते कृष्णमागतं दृष्ट्वा नैनतेयसहाच्युतम् ।
बभूवुर्दिव्यतया विष्टाः सर्वे नृपति सत्तमाः ॥ १ ॥ ते समेत्य सभां
राजनागानो भीमविक्रमाः । मन्त्राय मन्त्रबुशला नीतिशास्त्रार्थ-
वित्तमाः ॥ २ ॥ भीष्मकस्य सभां गत्वा स्मर्या हेमपरिष्कृताम् ।
सिंहासनेषु चित्रेषु विचित्रास्तरणेषु च । निपेदुस्ते नृपवरा देवा
देवसभामिव ॥ ३ ॥ तेषां मध्ये महाबाहुर्जरासन्धो महाबलः ।
वर्भापे स महातेजा देवान् देवेश्वरो तथा ॥ ४ ॥ जरासन्ध
उवाच । श्रुत्वा भो नृपश्रोष्टा भीष्मकश्च महापतिः । कथ्यमानं

श्रुति आदरपूर्वक पूजा पाते हुए श्रीकृष्ण उस राजाके घरमें परम
सुखसे रहे ॥ ४६ ॥ सैतालीसत्रोऽध्याय समाप्त ॥ ४७ ॥

वैशंपायनजीने कहा, कि इधर सब राजे गरुड़ और अच्युत
श्रीकृष्णको आये हुए देख-कर, चिन्तित होते लगे ॥ १ ॥ हे
राजन् ! उन भयंकर पराक्रमी नीति शास्त्र जानने वालोंमें, श्रेष्ठ
और सलाह करनेमें प्रवीण राजाओंमें मंत्रणा करनेके लिये सभा
को (करनेका विचार किया) ॥ २ ॥ फिर, जैसे देवता देवसभा
में बैठते हैं, तिसी प्रकार वे राजे भीष्मककी सुवर्णके नाम वाली
रंगलीय सभामें जाकर, विचित्र गद्दियों वाले विचित्र आसनों
पर बैठ गए ॥ ३ ॥ जैसे शिव देवताओंसे भाषण करते हैं, इसी
प्रकार उस समय महातेजस्वी महाबली महाशुभ जरासन्ध राजा-
ओंके बीचमें भाषण देने लगा ॥ ४ ॥ जरासन्धने कहा था, कि-
हे ब्रह्माओंमें श्रेष्ठ उदार राजाओं ! और महाबुद्धिमान भीष्मक
जी ! मैं अपनी बुद्धिके अनुसार जिस बातको कहता हूँ, उसको

मया युद्धया वचनं वदताम्बरः । ५ ॥ योऽसौ कृष्ण इति खयातो
 वसुदेवसुतो वली । वैनतेयसहायेन सम्प्राप्तः कुण्डिनं त्विह ६
 कन्याहेतोर्महातेजा यादवैरभिसम्भृतः । अवश्यं कुरुते यत्नं कन्या
 वाप्तिर्यथा भवेत् ॥७॥ यदत्र कारणं कार्यं सुनयोपेतमृद्धितम् ।
 कुम्भं नृपशार्दूला विनिश्चिन्य वलावलम् ८ ॥ यदा च तौ
 महावीर्यौ वसुदेवसुतावुभौ । वैनतेयं विना तस्मिन्गोमन्ते पर्वतो-
 त्तमे । यत्कृतं सुमहद् घोरं भवद्भिर्विदितं हि तत् ॥ ९ ॥ वृष्णि-
 भिर्यादवैश्चैव भोजान्घृणमहारथैः । समेत्य युद्धयमानस्य कीदृशो
 विग्रहो भवेत् ॥ १० ॥ कन्यार्थे यतताज्नेन गरुडस्थेन विष्णुना ।
 कः स्थास्यति रणे तस्मिन्नपि शक्रः सुरैः सह ॥ ११ ॥ यदा
 चास्मै नापि सुता वदाचित् सम्प्रदीयते । ततो ह्ययं वलादेनां
 नेतुं शक्तः सुरैः सह ॥ १२ ॥ पुरा एकार्णवे घोरे श्रूयते मेदिनी

आप सुनिये वसुदेवके बलवान् पुत्र जो श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध
 हैं वह गरुडजीके साथमें कुण्डिनपुरमें आ गए हैं ६ यह महा-
 तेजस्वी पुरुष कन्या लेनेके लिये ही यादवोंको अपने साथ लाये
 होंगे ७ अब हे राजाओं! तुम अपने बलावलका विचार करके ऐसा
 कार्य करो जो नीतियुक्त हो और जिससे (अपनी) वृद्धि हो ८
 इन वली वसुदेव पुत्रोंने पर्वतोंमें श्रेष्ठ गोमन्त पर्वत पर गरुडजीके
 न होने पर भी जैसा घमासान मचाया था, वह आपको विदित
 ही है ॥ ९ ॥ अब जब ये महारथी वृष्णि यादव भोज और
 अंशुकवंशके महारथियोंके साथ मिल कर युद्ध करेंगे, तो न जाने
 कैसा युद्ध होगा ॥ १० ॥ जब यह विष्णु गरुड पर सवार हो
 कन्याके लिये यत्न करेंगे तो इनके सामने युद्धमें कौन खड़ा होगा,
 उस समय तो देवताओंको साथ ले इन्द्र भी इनके सामने खड़ा
 न होसकेगा ॥ ११ ॥ यदि इन्हें कन्या न दी जावेगी तो ये
 देवताओंको साथ ले बलपूर्वक इसकन्याको लेजानेमें सपर्य हैं १२

विषयम् । पातालगतसम्मग्ना विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १३ ॥
 वाराहं रूपमास्थाय उद्धृता जगदादिना । हिरण्याक्षश्च दैत्येन्द्रो
 वराहेण निपातितः ॥ १४ ॥ हिरण्यकशिपुश्च महाबलपरा-
 क्रमः । अवभ्योऽपरदैत्यानामृषिगन्धर्वकिन्नरैः ॥ १५ ॥ यत्त
 राक्षसनागानां नाकाशे नावनिस्थले । न चाभ्यन्तरराज्यन्हां
 शुष्रेणार्द्रकैण च ॥ १६ ॥ अवभ्यस्त्रिषु । लोकेषु दैत्येन्द्रस्त्व-
 पराजितः । नाशसिंहेन रूपेण निहतो विष्णुना पुरा ॥ १७ ॥
 वामनेन तु रूपेण कश्यपस्यात्मजोऽवली । अद्रित्या गर्भसंभूतो
 बलिं वधा सुरोत्तमम् ॥ १८ ॥ सत्परञ्जुमयैः पार्श्वैः कृतः
 पातालसंश्रयः । कार्तवीर्यो महावीर्यः सहस्रशुभ्रविग्रहः ॥ १९ ॥
 दत्तात्रेयप्रसादेन मत्तो राजगमदेन च । जामदग्न्यो महातेजा रेणु

सुना है, कि-पृथ्वी पहिले एक समुद्ररूप थी (जल) के होने पर
 पातालमें डूबी जा रही थी, उस समय जगद्गुरु आदि-कारण
 इन प्रभावशाली विष्णुने वराहका रूप धारण कर पृथ्वी
 का उद्धार किया था, और इन वराहने दैत्यराज हिरण्याक्षको
 मार डाला था १३-१४ एक महाबली पराक्रमी हिरण्यकशिपु
 दैत्य था उसको ऋषि गन्धर्व किन्नर यत्त राक्षस और देवता भी
 नहीं मार सकते थे, तथा वह आकाश पृथ्वी भीतर बाहर रानि
 और दिनमें भी नहीं मारा जासकता था, और उसका सूखी
 और गीली बस्तुसे भी बच नहीं किया जा सकता था १५ १६
 ऐसा वह अपराजित दैत्येन्द्र तीनों लोकोंसे अवभ्य था उसको
 विष्णुने नरसिंहका रूप धारण कर मार डाला था ॥ १७ ॥ यह
 बलवान् अद्रितिके गर्भसे, कश्यपके वामन नामक पुत्र हुए थे
 उस समय इन्होंने असुरश्रेष्ठ बलिको सत्य-रञ्जुमय पाशोंसे बाँध
 कर पातालमें भेज दिया था, राजा कार्तवीर्य महाबली था उसके
 शरीरमें सहस्र शुभाँ थी, ॥ १८ ॥ १९ ॥ वह राजाके मदसे

कागर्भसम्भवः ॥ २० ॥ त्रेत्राद्वापरयोः सन्धौ रामः शस्त्रभृतां
वरः । पशुना वज्रकल्पेन सप्तद्वीपेश्वरो नृपः । विष्णुना निहतो
भूयश्छन्नरूपेण हैहयः २१ इत्त्वाकुकुलसम्भूतो रागो दाशरथिः
पुरा । त्रिलोकत्रिजगं वीरं रावणं संन्यपानयत् ॥ २२ ॥ पुरा
कृतघ्ने विष्णुः संग्रामे तारकामये । षोडशार्धभुजो भूत्वा गरु-
डस्थो हि वीर्यवान् ॥ २३ ॥ निजयानामुरान् युद्धे वरदानेन
गर्वितान् । कालनेमिश्च दैतेयो देवानां च भयपदः ॥ २४ ॥ सहस्र-
किरणामेन चक्रेण निहतो युधि । महायोगवलेनाज्ञो विश्व-
रूपेण विष्णुना ॥ २५ ॥ अनेन प्राप्तकालास्ते निहता बहवो-
सुराः ॥ वने वनचरा दैन्या महाबलपराक्रमाः ॥ २६ ॥ निहता
बालभावेन पलम्वारिष्टधेनुकाः । शकुनीं केशिनं चैव यमलार्जुन-

और दत्तात्रेयके प्रसादसे मत्त होरहा था, उस समय त्रेत्रा और
द्वापरकी संधिमें विष्णु रेणुकाके गर्भसे जमदग्निके महातेजस्वी
पुत्र बन कर उत्पन्न हुए उन शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ विष्णुने इस
प्रकार छन्नरूपसे सातों द्वीपों में ईश्वर उस हैहयवंशी सहस्रभुज
को अपने वज्रकी सगान फरसेमे मार डाला था ॥ २० ॥ २१ ॥
और इत्त्व कुकुलमें उत्पन्न हुए दशरथ पुत्र (विष्णुके अवतार)
समने त्रिलोकत्रिजगी रावणका मिरादिया था २२ पहिले यह वीर्य-
वान विष्णु सत्ययुगमें तारकामय संग्राममें अष्टभुजी मूर्ति धारण
कर गरुड़ पर सवार हुए ये २३ उस समय उन्होंने युद्धमें गर्वीले वने
हुए असुरोंको युद्धमें मार डाला था, और उन्होंने देवताओंको
भयभीत करने वाले कालनेमि दैन्यको सहस्र किरणोंवाले सूर्यकी
समान आभावाले चक्रसे युद्धमें मार डाला था, इन विश्वरूप
विष्णुने युद्धमें महायोगके बलसे जिनेका समय सभी आगये था
ऐसे बहुते महापराक्रमी वनेवर दैत्योंको युद्धमें मार डाला
था २६ उन्होंने बालभावसे पलम्बर अरिष्टधेनुक पुतना केशी और

कावपि ॥ २७ ॥ नागं कुवलगारीडं चाणूरं मुष्टिकं तथा । कंसं
 च बलिनां श्रेष्ठं सगणं देवकीपुत्रः । निहनद्रोपनेपेण क्रीडमानो
 हि केशवः । एवमादीनि दिव्यानि लक्षणरूपाणि चक्रिणा ॥ २६ ॥
 कृतानि तत्र तत्रैव प्रायया प्रभविष्णुना । तेनाहं वः प्रवक्ष्यामि
 भवतां हितकाम्यया ॥ २७-॥ तं मन्ये केशवं विष्णुं सुराद्यम-
 सुरान्तकम् । नारायणं जगद्योनिपुणं पुरुषं ध्रुवम् ॥ २९ ॥
 सृष्टारं सर्वभूतानां व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् । अदृश्यं सर्वलोकानां
 सर्वलोकनमस्कृतम् ॥ ३० ॥ अनादिमध्यनिधनं चरमन्नरशाश्व-
 तश्च । स्वगम्भुवजं स्थाणुभजेयं सचराचरैः ॥ ३३ ॥ त्रिविक्रमं
 त्रिलोकेशं विदर्शोद्धारिनाशनम् । इति मे निश्चिता बुद्धिर्जातोऽयं
 मथुरामधि ॥ ३४ ॥ कुले महति वै राज्ञां विपुले चक्रवर्तिनाम् ।

यंगलार्जुनकोमार डाला था २७ और इन देवकीपुत्रने कुवलगारी-
 पीड हाथी चाणूर मुष्टिक और बलिनांम श्रेष्ठ कंसको भी उस
 के अनुचरोंसहित मार डाला था २८ इन सबको केशवने गोप
 का वेष धारण करके मार डाला था इस प्रकार इन प्रभावशाली
 चक्रवान् पुरुषने अपनी मायासे जहाँ तहाँ कण्टके रूप धारण
 किये हैं, इस लिये मैं आपके हितकी इच्छासे आपसे कहता हूँ,
 कि—॥ २६ ॥ २७ ॥ अत एव मैं केशवको विष्णु, देवताओंके आदि,
 असुरोंके लिये यमराज, नारायण, जगत्के उत्पत्तिस्थान, पुराण-
 पुरुष, अच्युत, सर्व भूतोंके सृष्टा, व्यक्त अव्यक्तरूप, सनातन,
 सब लोकोंसे अदृश्य, सब लोकोंसे नमस्कृत आदि मध्य और
 अंतरहित, चर और अचररूप शाश्वत, स्वगम्भू, अज, स्थाणु
 और चराचरोंसे अजेय, त्रिविक्रम, तीनों लोकोंके ईश, और
 देवताओंके ईश्वर इन्द्रके शत्रुओंको नष्ट करने वाले सगभता हूँ
 मेरा यह दृढ़ विचार है, कि—तुम्हीं यह चक्रवर्ती राजाओंके बड़े
 भारी कुलमें उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि—तुम्हीं गुरुजी क्या किसी

कथमन्यस्य मर्त्यस्य गरुडो वाहनं भवेत् ॥ ३५ ॥ विशेषेण तु
 कन्यार्थे निरुपस्थे जनेर्दाने । कः स्थास्यति पुमानद्यं गरुडस्या-
 ग्रतो बली ॥ ३६ ॥ स्वयम्बरकृतेनोसौ विष्णुः स्वयमिहागतः ।
 विष्णोरागमने चैव महान् दोषः प्रकीर्तितः ॥ ३७ ॥ भवद्भिरनु-
 न्तिन्त्येदं क्रियतां यदनन्तरम् । वैशम्पायन उवाच । एवं विब्रुव-
 माणं तं मगधनां जनेश्वरम् ॥ ३८ ॥ सुनीयोऽथ महाप्राज्ञो वचनं
 चेदमब्रवीत् । सुनीथ उवाच । सम्यगाहं महाबाहुर्मगधाधिपति
 र्गुणः ॥ ३९ ॥ समर्क्षं नरदेवानां यथावृत्तं महादिवे । गोमन्ते राम
 कृष्णाभ्यां कृतं कर्म सुदुष्करम् ॥ ४० ॥ गजाश्वरथसम्बाधा
 पत्तिञ्चर्जसमाकुला । निर्दग्धा महती सेना चक्रलाङ्गलवन्दिना ४१
 तेनायं मगधः श्रीमाननागतमचिन्तयत् । ब्रुवते राजसेनायामनु-

मनुपके वाहन वन सरते हैं ॥ ३९-३५ ॥ जब श्रीकृष्ण कन्या
 के लिये पराक्रम करने लगे उस समय कौनसा बलवान्
 पुरुष गरुडके सामने खड़ा रह सकेगा? ॥ ३६ ॥ स्वयंवरके
 कारण विष्णु अपने आप यहाँ आ गए हैं और विष्णुका आग-
 मन रहा भारी दोष माना जाता है ॥ ३७ ॥ इन सब
 बातों को विचार कर आप जिस कार्यको करना चाहें करें । वैशं-
 पायनजीने कहा, कि मगधदेशके मनुष्याके राजा जरासंध इस
 प्रकार रह रहे थे इतनेमें ही महासुद्धिमान् सुनीथ यह बात कहने
 लगा, सुनीथने कहा, कि महाभुग मगधाधिपने ठीक बात कही है,
 गोमन्तपर्वतमें रामकृष्णने सब नरदेवोंके सामने, युद्धमें जो
 दुष्कर कर्म किया था, उसका उत्तान्त (आपको विदित है)
 ॥ ३८-४० ॥ उस समय हाथी घोड़े और रथोंसे भरी हुई
 शौर पैदा तथा भवजाओंसे व्याप्त पड़ी भारी सेना चक्र और
 लागलकी आगसे गरम होगई थी ४१ इसी लिये इन मगधराज
 ने मनिष्यकी वान सोची है, यह मनवाने राजसेनामें हुई पहिली

स्पृश्यं सुदारुणम् ॥ ४२ ॥ उपदात्योयुध्यतोस्तत्र बलवैश्वयो
 युधि । दुर्निवार्यतरो घोरो ह्यभवद्वाट्टिनीक्षयः ॥ ४३ ॥ विदितं
 वः सुपर्णस्य स्वागतस्य नृपोत्तमाः । पत्नवेशानिलोद्बभूवुः बभ्रुमु
 र्गर्गनेचराः ॥ ४४ ॥ समुद्राः क्षुभिताः । सर्वे च चालाद्रिर्गद्दी
 मुहुः । वय सर्वे सुसन्वरताः । गिमुत्पातेऽतिविबलधाः ॥ ४५ ॥
 यदा संनद्य युयुधे आरूढः केशवः खनम् । कथगरमद्विधः शक्तः
 ततिस्थातुं रणाजिरे ॥ ४६ ॥ राज्ञां स्वयम्बरो नाम, सुगहान्
 हर्षवर्धनः । कृतो नरपरैर्गर्घ्यैश्चोद्यमस्य, वै-विधिः ॥ ४७ ॥ इदं
 तु कृष्टिडनगरमासाद्य मनुजेवराः । पुनरेवैष्यते क्षिप्रं महा
 पुरुषविग्रहम् ॥ ४८ ॥ यदि सा वरयेदन्यं राज्ञां मध्ये नृपात्मजा ।
 कृष्णस्य भुजयोर्वीर्यं कः पुमान् प्रसहिष्यति ॥ ४९ ॥ विज्ञापित-

दारुण घटनाको स्मरण कर कह रहे हैं ४२ तहाँ पर जब केशव
 और बलराम गैदल होकर युद्ध कर रहे थे उस समय सेनाका
 भयंकर क्षय होने लगा, और वह कठिनतासे भी नहीं रुका, ४३
 हे राजाओं !-तुम्हें, सुपर्णके आनेकी बात विदित ही है, कि-
 ष्णके पत्नीकी वायुसे घबड़ा कर, आकाशचारी, प्राणी घूम गए
 थे ४४-समुद्र क्षुब्ध होने लगे थे, और पर्वत तथा पृथिवी बारबार
 काँपने लगी थी और हम भी सब, "यह क्या उत्पात हुआ"
 कह कर घड़े घबड़ा गए थे ४५ जब यह केशव ऐसे पत्नी पर
 चढ़ कर युद्ध कर रहे उस समय हम सरीखा पुरुष रणांगणमें कैसे
 खड़ा रहे सकेगा ४६ पहिले श्रेष्ठ मनुष्योंने धर्म और यशाकी
 विधिरूप राजाओंके हर्षको बढ़ानेवाले स्वंगरको प्रकृता है ४७
 परन्तु हे राजाओं ! अब यह (कृष्ण) कृष्टिडन नगरमें आ कर
 फिर शीघ्र उसे युद्ध कराना चाह रहे है ४८ इस समय राजाकी
 पुत्री यदि श्रीकृष्णको छोड़ कर और किसी राजाका वरण कर
 लेगी तो श्रीकृष्णकी भुजाओंके वीर्यको कौन सहेगा ४९-यह

मिदं दोषं स्वयम्बरमहोत्सवम् । तदर्थमागतः कृष्णो वयं चैव
नराधिपाः ॥ ५० ॥ कृष्णस्मागमनं चैव नृपाणामतिगर्हितम् ।

कन्याहेतोनरेन्द्राणां यथा वदति मागधः ॥ ५१ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि रुचिमणी-

स्वयम्बरे सुनीथवाक्येऽष्टवत्वारिंशोऽध्यायः ॥४८॥

— वैशम्पायन उवाच । इत्येवमुक्ते वचने सुनीथेन महान्मना ।
करुणाधिपतिर्वीरो दन्तवक्रोऽभ्यभाषते ॥१॥ दन्तवक्र उवाच ।

यदुक्तं मागधेनात्र सुनीथेन नराधिपाः । युक्तपूर्वमहं मन्ये । यद-
स्माकं वचो हितम् ॥ २ ॥ न च विद्वेषणेनाहं न । चाहंकार-

वादिना । न चात्मविजिगीषुत्वाद्द्रूपययामि वचोऽमृतम् ॥३॥

वाक्यार्णवमहागाथं नीतिशास्त्रार्थवृंहितम् । क एष निखिलं

वक्तुं शक्तो वै राजसंमदि ॥ ४ ॥ किं त्वन्नृस्मरणार्थेऽहं यद्

व्रवीमि शृणुष्व मे । आगतो वासुदेवेति किमाश्चर्यं नराधिपाः ५

स्वयम्बरके महोत्सवका वड़ा भारी दोषं आपकी वता दिया,

इम राजे और श्रीकृष्ण भी इस स्वयम्बरके लिये ही आये हैं ५०

मगधराजके कथनानुसार कन्याके निमित्त कृष्णका और राजाओं

का आना अतिकठिन बात है ५१ अधितालीसवाँ अध्याय समाप्त ४८

वैशंपायनजीने कहा, कि—महात्मा सुनीथके यह वचन कह

चुक्ने पर करुणदेशके स्वामी वीर राजा दन्तवक्रने भाषण दिया १

दन्तवक्रने कहा, कि—हे राजाओं ! मगधराजने और सुनीथने

हमारा हित करने वाला युक्तियुक्त वचन कहा है, ऐसा मेरा

मन है ॥ २ ॥ मैं द्वेषवश वा अहंकारवश वा आत्मविजिगीषु

होनेके कारण इस वचनामृतका विरोध नहीं करता हूँ ॥ ३ ॥

वाक्यसमुद्रसे महा अगाध और नीतिशास्त्रसे बसे हुए ऐसे पूर्ण

वाक्यको राजसमागमें और कौन कह सकता है १ ॥४॥ किन्तु

मैं स्मरण दिलानेके लिये एक बात कहता हूँ, उसको आप सुनिये

यथाऽगता वयं सर्वे कृष्णांऽपीह तथाऽगतः । किमत्र दोषो गौण्यो
 वा कन्याहेतोः समागताः ॥६॥ यदस्माभिः समेन्यैख्यात् कृतं
 गोमन्तरोधनम् । तत्र युद्धकृतं दोष कथं नैवक्तुमर्हथ ॥ ७ ॥
 वनवासे स्थितौ वीरौ, कंसव्यामोहहेतुना । देवर्षिवचनाद्राजन
 वृन्दावनतटे स्थितौ ॥८॥ तावाहूय वधार्थेन उभौ रामजनार्दना ।
 नागेनोद्दीपितौ वीरौ हत्वा नागं विवेशतुः ॥ ९ ॥ ततः स्ववीर्य-
 गाश्रित्य निहतौ रङ्गसागरे । गतासुरिषु चासीनो मयुरेशः सहा-
 जुगः ॥ १० ॥ किमत्र निहितो दोषो येनास्माभिर्वयोधिकैः । उप-
 रोधपरौ राजन् वयं सर्वे समागताः ॥११॥ सेनातिबलमालोक्य
 वित्रस्तौ रामकेशवौ । पुरं वलं समुत्सृज्य गोमन्ते च गतावुभौ

कि-हे राजाओं ! यहाँ पर, वासुदेव आ गए, तो इसमें आश्चर्य
 करने की क्या बात है ? ॥ ५ ॥ जैसे हम सब आये हैं, वैसे ही
 कृष्ण भी यहाँ आये हैं, सब कन्याके लिये ही आये हैं अतः इसमें
 गुण वा दोष क्या है ? ॥ ६ ॥ हम सबने ही गोमन्त, पर्वत पर
 इकट्ठे होकर घेरा डाला था, यदि उस युद्धमें गड़बड़ी पड़ गई तो
 उसमें आप (कौनसा मुख मुँह लेकर) बोलते हैं ॥ ८ ॥ देवर्षि
 नारदके बचनसे कम्प मोहमें पड़ गया था अत एव उसने वृन्दा-
 वनके तट पर रहने वाले इन दोनों जंगली राम और कृष्णको
 इनका वध करनेके लिये बुला लिया था, जब कुवलायापीड़ने
 इनको जुद्ध कर दिया तब ये दोनों वीर उसको मार रंगस्थलमें
 घुस गए थे ९ तदनन्तर इन दोनोंने अपने वीर्यके बलसे, मरे
 हुएकी समान (असावधान) बैठे हुए मयुरेशको अनुचरोंसहित
 रंगस्थलमें मार डाला था १० हे राजन् ! हम सब (गोमन्तमें)
 घेरा डालने वाले राजे उसी अवस्थामें अधिक राजाओंने यहाँ
 आकर अपराध ही क्या किया है ? ? (उस समय) हमारी सेना
 को अतिबली देख कर राम और केशव भयभीत होगए थे तब

तत्रापि गन्तव्यमभिर्हृतुं समरयोधिभिः । अग्राप्तगोवनाभ्यां च
 पदातिभ्यां रणाजिरे ॥ १३ ॥ तथाश्वनरनागेन नाम्पाभिर्विग्रहः
 कृतः । कृत्वोपरोचं शैलस्य क्षत्रयुगेण दीपितः ॥ १४ ॥ दानां
 ग्निगुण्यमात्रिण्य दुर्विनीततपास्वनां विनीत इति मन्यामः सवे
 क्षत्रियपुङ्गवोः । प्रतियुद्धं कृते त्वेवं दूषयाम जनार्दनम् ॥ १५ ॥
 यत्र यत्र प्रयास्यामो वयं तत्र भवेत्कलिः । प्रीत्यर्थं प्रयतिर्गामो
 कृष्णेन सह भूमेयोः ॥ १६ ॥ इदं कुण्डपुरं कृष्णो नागतः
 कलिहेतुना । कन्यानिपित्तागमने कस्य युद्धं प्रयेच्छति ॥ १७ ॥

ही तो वे अपनी सेना और नगरीको छोड़ कर गोपन्तपर्वतमें
 भाग गए १२ हम समरयोधा पुरुष तहाँ भी उनको मरने गए
 थे, परन्तु उम समय बसुदेवके दोनों पुत्र तरुण नहीं थे, बालक
 थे और रणमें पैदल खड़े थे, अत एव उन्हींने हाथी घोड़े और
 पैदलों वाले हम क्षत्रियोंके साथ युद्ध नहीं किया, तब हमने
 क्षत्रिय धर्मानुसार घेरा डाल कर पर्वतको जला दिया था १३ १४
 (तब तो तुमने बड़ा अप्रमत्त किया, इस शंकाको टालनेके लिये
 दन्तवक्रने कहा, कि-तपस्वियोंका दावाभिसे जल जाना अच्छा
 है, अत एव हमने) इन दुर्विनीततपास्वियोंका दावाग्निके मुखमें
 भोंक दिया था, (इनमें जो दुर्विनीततर है अर्थात् बड़ा खोटा है
 उसको) सब क्षत्रियपुंगव (इस प्रकार मार कर) विनीत बनाना
 चाहते थे, परन्तु अब जनार्दनसे युद्ध करना जनार्दनको दूषित
 करना है (अर्थात् हम उसको उस युद्धमें ठीक कर चुके हैं,
 परन्तु) ॥ १५ ॥ हम जहाँ २ जायेंगे तहाँ यह उत्पात इसी
 प्रकार खड़ा होता रहेगा अतः हे राजाओं ! अब कृष्णके
 साथ मेग (सन्धि करनेका प्रयत्न करना चाहिये १६ श्रीकृष्ण
 कुण्डपुरमें युद्ध करनेके लिये नहीं आये हैं कन्याके लिये आने
 पर वह किसीसे युद्ध क्यों करेंगे ? १७ (पहिले वैरका स्मरण

मत्स्योस्मिन् पुरुषेन्द्रोऽसौ न कश्चित् प्राकृतो नरः । देवलोकेषु
 देवेषु प्रवरः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ देवानामपि कर्तासौ लोकानां च
 विशेषतः । न चैव बालिशा बुद्धिर्न चेर्ष्या नापि मत्सरः ॥१९॥
 न स्तब्धो न कृशो नार्तः गणतार्तिहरः सदा । एष विष्णुः
 प्रभुर्देवो देवानापि दैवतम् ॥२०॥ आगतो गरुडेनेह ब्रह्मपाकारय-
 हेतुना । नानास्रसहितो याति कृष्णः शत्रुविनाशने ॥२१॥ इमां
 यात्रां विजानीध्वं प्रीत्यर्थं ह्यागतो हरिः । सहितो यादवेन्द्रैश्च
 भोजवृष्णयन्धकैरिह ॥२२॥ अर्घ्यमाचमनं दत्त्वा आतिथ्यं च
 नराधिपाः । करिष्याम'यं सर्वं केशवाय महात्मने ॥२३॥ एवं
 सन्धानतः कृत्वा कृष्णेन सहिता वयम् । वसामो विगतोद्देशा

कर शायद वह युद्ध करने लगे, इस शंकाको दूर करनेके लिये
 कहते हैं, कि—) इस मृत्युलोकमें श्रीकृष्ण पुरुषेन्द्र हैं, कोई साधा-
 रण आदमी नहीं हैं, यह पुरुषोत्तम देवलोकमें देवताओंमें भी
 श्रेष्ठ हैं ॥ १८ ॥ यह देवता और विशेषतः लोकोंके भी आदि-
 कर्ता हैं, अत एव इनमें बुद्धि ईर्ष्या (अज्ञान) और देखनल-
 नापन नहीं हो सकता ॥ १९ ॥ यह जड़ वा दुर्बल नहीं हैं, यह
 तो नमने वाले पुरुषोंके दुःखको दूर करनेके लिये सर्वदा उद्यत
 रहते हैं, यह विष्णु भगवान् देवताओंके भी देवता हैं ॥ २० ॥
 अपने अप्रकट रूपको प्रकट करनेके लिये ही भगवान् यहाँ पर
 गरुड़के साथ आये हैं, क्योंकि—शत्रुओंका विनाश करनेके समय
 तो यह अनेक अस्त्रोंको साथमें लिये विना नहीं आते हैं २१
 यादवेन्द्रोंको और भोज तथा वृष्णवंशके महारथियोंको साथमें
 लेकर श्रीकृष्ण यहाँ पर आये, इस समयकी इनकी यात्राको प्रीति-
 मयी यात्रा समझना चाहिये ॥ २२ ॥ हे राजाओं ! महात्मा
 केशवके लिये अर्घ्य आचमन आदि देकर इगका अतिथिसत्कार
 करना चाहिये ॥ २३ ॥ इस प्रकार श्रीकृष्णसे हाथ संधि कर

निर्भया विगतज्वराः ॥ २४ ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दन्तवक्रस्य
 वीमतः । शाल्वः प्रवृत्तां श्रेष्ठस्तानुवाच नराधिपान्, ॥ २५ ॥
 शाल्व उवाच । किं भयेनास्य नः सर्वे न्यस्तशस्त्रा भवामहे ।
 सन्धानकरणाद्देवोः कृष्णस्य भयशंकिताः ॥ २६ ॥ परस्तवेन
 किं कार्यं विभिन्नवत्प्रात्मनः । नैव धर्मो नरेन्द्राणां क्षात्रे धर्म
 च तिष्ठताम् ॥ २७ ॥-महत्सु राजवंशेषु सम्भूताः कुलवर्धनाः ।
 तेषां आपुरुषा बुद्धिः कथं भविष्यति ॥२८॥ अहं जानामि वै
 कृष्णमादिदेवं सनातनम् । प्रभु सर्वानरेन्द्राणां नारायणाराण
 णम् ॥ २९ ॥ वैकुण्ठगजयं लोके चराचरगुरुं हरिम् । सम्भूतं
 देवकीगर्भे विष्णुं लोकनमस्कृतम् ॥ ३० ॥-कंसराजवधार्थाय
 भारववरणाय च । अस्माकं च विनाशाय लोकसंरक्षणाय च ३१

लें तो हम उद्वेग भय और ज्वर (चिंता) रहित होकर रह
 सकेंगे ॥ २४ ॥ बुद्धिमान् दन्तवक्रके इस वचनको सुन कर
 पक्षाघातमें श्रेष्ठ शाल्वने उन सब राजाओंसे कहा, कि ॥ २५ ॥
 शाल्वने कहा, कि क्या हम सब श्रीकृष्णके भयसे शंकिता होकर
 संधि करनेके लिये अपने शस्त्रोंको रख दें ? ॥ २६ ॥ अपनी
 शक्तिकी निन्दा कर परार्थ स्तुति करनेसे क्या कार्य (लाभ) ?
 क्षत्रिय वर्गका पालन करने वाले राजाओंका यह धर्म नहीं है २७
 अहो ! आप कुलको बढ़ाने वाले पुरुष बड़े २ राजाओंके वशमें
 उत्पन्न हुए हैं, आपमें ऐसी आपुरुषोक्ति बुद्धि कहाँसे आ गई २८
 मैं कृष्णको जानता हूँ, वह आदिदेव हैं, सनातन हैं, सब देवताओंके
 स्वामी हैं और नारायण हैं परायण हैं वैकुण्ठरूप हैं, लोकमें अजय
 हैं, चराचरके गुरु हैं, हरि हैं, देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए विष्णु हैं,
 संसार उनको प्रणाम करता है । २९। ३०। वह (पृथ्वी का) भार
 उठानेके लिये, कंसराजका वध करनेके लिये, हमारा नाश
 करनेके लिये और संसारकी रक्षा करनेके लिये उत्पन्न हुए हैं

अंशावतरणे कृत्स्नं जाने विष्णोर्विचेष्टितम् । संग्रामगतुलं कृत्वा
 विष्णुना सह भूमिपाः ॥ ३२ ॥ चक्रानलविनिर्द्ग्या यास्यामो
 यमसादनम् । तत्त्वं जानामि राजेन्द्राः कालेनायुःक्षयो भवेत् ३३
 नाकाले म्रियते कश्चित् मासे काले न जीवति । एवं विनिश्चयं
 कृत्वा न कुर्यात् कस्यचिद्भयम् ॥ ३४ ॥ स एव भगवान् विष्णु-
 रालोक्य तपसः क्षणम् । निहन्ता दितिजेन्द्राणां यथा कालेन
 योगवित् ॥ ३५ ॥ वलिं विरोचनं चैव बध्वाऽबध्यं महाबलम् ।
 कृतवान् देवदेवेशः पातालतलवासिनम् ॥ ३६ ॥ एवमादीनि च
 विष्णोश्चेष्टानि च नराधिपाः । तस्माद्युक्तं भवतां विग्रहार्थं
 विचारणम् ॥ ३७ ॥ न च संग्रामहेतोर्हि कृष्णस्वामिनं त्विह ।
 पश्य वा कस्य वा कन्या चरं गिष्यति तस्य सा । किमत्र विग्रहो

अंशावतार लेनके विष्णुके सारे विचेष्टितों (कारणों) को मैं
 जानना हूँ; हे राजाओं ! हम विष्णुके साथ अतुल संग्राम
 करके चक्री अग्निते-भस्म होकर गमसदनको चले जावेगे,
 हे राजेन्द्राँ ! इन सब तत्त्वोंको मैं जानता हूँ (परन्तु) काल आने
 पर ही आयुका विनाश होता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ बिना समय
 आये कोई भी नहीं मरता और समय आने पर कोई वच भी
 नहीं सकता, इस बातका निश्चय करके किसीका भय न करे ३४
 यह भगवान् विष्णु दितिपुत्रोंके तपके क्षणको देख कर समयानु-
 सार उनको मार डालते हैं, क्योंकि-यह योगको जानने वाले
 हैं ॥ ३५ ॥ इन दोशने, विरोचनके पुत्र अबध्य वलिको बाँध
 कर पातालमें निकाल दिया था ॥ ३६ ॥ हे राजाओं ! इस
 प्रकार विष्णुके अनेक प्रकारके कर्म हैं इस लिये आप लोगोंको
 युद्धकी चिंता करना अनुचित है ॥ ३७ ॥ यहाँ पर श्रीकृ-
 ष्णका आगा संग्राम करनेके लिये नहीं हुआ है, किसीकी
 कन्या जिसको चर लेती है, वह उसकी ही हो जाती है,

राज्ञां प्रीतिर्भवति वै ध्रुवम् ॥ ३८ ॥ वैशम्पायन उवाच । एवं
 कथयमानानां नृपाणां बुद्धिशालिनाम् । न किञ्चिद्व्रवीद्राजा
 भीष्मकः पुनश्चारणात् ॥ ३९ ॥ महावीर्यमदोरिसक्तं भार्गवास्त्राभि-
 रक्षितम् । रणप्रचण्डातिरथं विचिन्त्य मनसा सुतम् ॥ ४० ॥
 भीष्मक उवाच । कृष्णं न सहते नित्यं पुत्रो मे बलदर्पितः ।
 नित्नाभिमानो च रणे न विभेति च कस्यचित् ॥ ४१ ॥ कृष्णस्य
 भुजवीर्येण हियते नात्र संशयः । भविष्यति ततो युद्धं महापुरुष-
 विश्रहम् ॥ ४२ ॥ द्वेषी चैवाभिमानो च कुतो जीवति मे सुतः ।
 जीवितं नात्र पश्यामि मम पुत्रस्य केशवात् ॥ ४३ ॥ कन्याहेतोः
 सुतं ज्येष्ठं पितृणां नन्दिवर्धनम् । कारपिप्ये कथं युद्धं पुत्रेण सह
 वेशवम् ॥ ४४ ॥ स च नारायणो देवो वर इष्टस्तु स्वमवान् ।

इसमें राजाओंके लड़नेकी कौन बात है इससे तो वे
 पसन्न ही होते हैं ॥ ३८ ॥ वैशंपायनजीने कहा, कि—बुद्धिमान्
 राजे इस प्रकार बात भीत कर रहे थे, परन्तु उस समय भीष्मक
 ने बड़ेभारी बल वीर्य वाले, भार्गव (परशुराम) के अस्त्रोंसे
 रक्षितराममें प्रचण्ड अतिरथी अने पुत्रकी (बात) का मनमें
 विचार कर अपने पुत्रके कारण कुछ नहीं कहा ॥ ३९ ॥ ४० ॥
 उस समय भीष्मकने (अपने मनमें) कहा कि—मेरा
 यमएही पुत्र कृष्णको नहीं सहता है, वह सर्वदा अभिमान
 में भरा रहता है और रणमें किसीसे नहीं डरा करता है ४१
 इस (कन्याके) कृष्ण अपनी भुजाओंके वीर्यसे अवश्य ही
 छीन लेंगे, उस समय बड़े २ पुरुषोंका संहार करने वाला युद्ध
 होगा ॥ ४२ ॥ उस समय मेरा द्वेषी और अभिमानो पुत्र कैसे
 जीवित वच मकेगा, मैं देखता हूँ, कि—केशवसे मेरे पुत्रका जीवन
 नहीं बचेगा ॥ ४३ ॥ (हा !) मैं पितरोंके आनन्दको बढ़ाने वाले
 अपने ज्येष्ठपुत्रको कन्याके लिये केशवसे कैसे लड़ाऊँगा ४४

मूढभावो गदोन्मत्तः संग्रामोचनिवर्तकः । नियतं भस्मसाघ्राति
 तूलराशिर्गथाऽनलात् ॥ ४५ ॥ क्रुरवीरेश्वरः शूरः शृगालत्रि-
 योविना । क्षणेन भस्मसान्नीतः वेशवेन बलीयसा ॥ ४६ ॥
 वृन्दावने वसन् श्रीमान् केशवो बलिनां वरः । उद्धृत्यैकेन
 हस्तेन सप्ताहं धृतवान् गिरिम् ॥ ४७ ॥ दुष्करं कर्म संस्मृत्य मनः
 सीदति मे भृशम् ॥ ४८ ॥ नगेन्द्रे सहसागम्य दैवतैः सह वृत्रहा ।
 अभिषिच्यत्रवीत् कृष्णमुपेन्द्रेति शचीपतिः ॥ ४९ ॥ यथा नौ
 दमितो नागः कालियो यमुनाहृदे विपाग्निज्वालितो योरः काला-
 तकसमप्रभः ॥ ५० ॥ केशी चापि महावीर्यो दानवो हयविग्रहः ।
 निहतो वासुदेवेन देवीरपि दुरासदः ॥ ५१ ॥ सान्दीपनिसुत-

वह तो नारायण देव हैं, और मेरा पुत्र अभिलषित वर पानेके
 कारण मूढ़ होरहा है, वह गदोन्मत्त है और संग्राममेंसे नहीं
 लौटा करता है अन एव जैसे रुई अग्निसे भस्म होजाती है तैसे
 वह भस्म ही हो जायगा ॥ ४५ ॥ इन विचित्र युद्ध करने वाले
 बलवान् केशवने क्रुरवीरपुरके राजा शृगालको क्षण भरमें भस्म
 कर डाला था ॥ ४६ ॥ बलवानोंमें श्रेष्ठ इन श्रीमान् केशवने
 वृन्दावनमें निवास करते समय एक हाथसे अचलको उखाड़ कर
 सात रात तक उसको (अपने एक हाथ पर) रक्खा था ४७
 उनके ऐसे दुष्कर कर्मका स्मरण कर मेरा मन बड़ा बवड़ाता
 है ॥ ४८ ॥ सहसा वृत्रासुरनाशक देवराज इन्द्रने और देवताओं
 ने पर्वत पर आकर इनका अभिषेक कर दिया था, फिर शचीपति
 इन्द्रने इनसे उपेन्द्र (इन्द्रके छोटे भाई) बहा था ४९ इन्होंने
 यमुनाजीके तालाबमें विषकी अग्निसे प्रज्वलित काल और यम-
 राजकी समान प्रभा वाले भयंकर कालिय नागका दमन किया
 था ५० और इन वासुदेवने देवताओंसे भी दुरासद घोड़ेका
 शरीरधारण करने वाले महावीर्यवान् वेशी दैत्यको भी गार

श्वैव चिरनष्टो हि सागरे । दैत्यं पञ्चजनं हत्वा आनीतो यम-
 गन्दिरात् ॥ ५२ ॥ गोमन्ते सुमहद्युद्धं बहुभिर्वेष्टितावुभौ । कृत्वा
 विनासजननं नागाश्वरथसंज्ञयम् ॥ ५३ ॥ गजेन गजवृन्दानि
 रथेन रथयोधिनः । सादिनश्चाश्वयोधेन नरेण च पदातिनः ।
 जघ्नतुस्तौ महावीर्यौ वसुदेवसुतावुभौ ॥ ५४ ॥ न देवासुरगन्धर्वा
 न यक्षोरगराक्षसाः । न नागा न च दैत्येन्द्रा न पिशाचा न
 शुह्यकाः ॥ ५५ ॥ कृतवन्तस्नथा घोरं गंजाश्वरथसंज्ञयम् । तमनु-
 स्मृत्य संग्रामं भृशं सीदति मे मनः ॥ ५६ ॥ न मया श्रुतपूर्वो
 वा दृष्टपूर्वः कुतोऽपि वा । तादृशो भुवि मर्त्योऽन्यो वासुदेवात्
 सरोचगात् ॥ ५७ ॥ सम्पगाद् महाबाहुर्दन्तवक्रो महीपतिः ।

दाला था ५१ और इन्होंने बहुत समय हुआ सगुद्धमें हूवे हुए
 सान्दीपनिके पुत्रको भी पञ्चजनदानधको गार कर यमराजके
 यहाँसे लाकर (अपने गुरु सांदीपनिको) दिया था ५२ इन
 दोनोंने बहुतसे (राजाओंसे) धिरे होने पर भी गोमन्तपर्वतमें
 हाथी घोड़े और रथोंका संहार कर (मनुष्योंको) डराने वाला
 बड़ा भारी युद्ध किया था ५३ उस युद्धमें इन दोनों वसुदेवके
 बलवान् पुत्रोंने हाथीसे हाथियोंके झुण्डोंको मारा था, और रथ
 उठा कर रथमें बैठ कर लड़ने वाले राजाओंको मारा था, और
 सवारोंको घुड़सवारसे मारा था, और पैदलोंको मनुष्यको उठा
 उससे मारा था ५४ हाथी घोड़े और रथोंका ऐसा संहार तो न
 राज्ञम कर सकते हैं, न देवता कर सकते हैं न गन्धर्ग कर सकते
 हैं, और न यज्ञ कर सकते हैं और न सर्प कर सकते हैं और
 नाग पिशाच तथा दानव भी ऐसा संहार नहीं कर सकते, उस
 संग्रामका स्मरण आने पर मेरा मन बड़ा व्यथित होता है ५५-५६
 देवताओंमें श्रेष्ठ वासुदेवकी समान पृथ्वीमें मैंने कोई मनुष्य सुना
 भी नहीं फिर देखना तो कहीं ? ५७ महाभुज राजा दन्तवक्रने

सान्त्वयित्वा महावीर्यं सम्बिभ्राम्याम यत्तमम् ॥ ५८ ॥ वीशं
 पायन उवाच । इति संचिन्त्य मनसा बलावलविमिश्रयन् । गम-
 नाय मतिं चक्रे प्रसादयितुमच्युतम् ॥ ५९ ॥ चिन्तयानो नरे-
 न्द्रस्तु बहुभिर्नगशालिभिः । सूतमागधवन्दिभ्यो वाञ्छितः स्तुति-
 गङ्गलैः ॥ ६० ॥ मभातायां रजन्यां तु कृत्वा पूर्वाह्निकक्रियाः । उप-
 विष्टा नृपाः सर्वे स्वेषु विश्रागवेश्मसु ॥ ६१ ॥ ये विष्टास्तु
 राजानो विदर्भायां नराधिपैः । तैरागम्य स्वभूषेषु रहो गत्वा
 निवेदितम् ॥ ६२ ॥ श्रुत्वा कृष्णाभिपेकं तु केचिद्दृष्ट्वा नरा-
 धिपाः । केचिद्दीनतरा भीता उदासीनास्तथापरे ॥ ६३ ॥ त्रिधा
 प्रभिन्ना सा सेना नरनागाश्वमालिनी । महार्णव इव क्षुब्धा
 अभिपेकेण चालिता ॥ ६४ ॥ नृपाणां भेदमालोच्य भीष्मको

यह बात ठीक ही कही, कि महाभुज श्रीकृष्णको समझा कर
 अपना कर्तव्य पालन कर लें ५८ वैशम्पायानीने कहा, कि-
 राजा भीष्मकने इस प्रकार मनमें आने वनावलका विचार कर
 श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिये उनके पास जानेका विचार
 किया ५९ राजा भीष्मक इस प्रकार चिन्ता कर रहा था, इतनेमें
 ही नीतिशास्त्रको जानने वाले बहुतसे सूतमागध और वन्दिगनों
 ने मंगल और स्तुतिके वचनोंसे उसको जगाना आरम्भ कर
 दिया ६० तदनन्तर जब रात्रि बीत कर प्रभात होगया, तब
 सब राजे पूर्वाह्निककी क्रिया करके अपने २ विश्रागभवनोंमें बैठ
 गए ६१ राजाओंने विदर्भ नगरीमें जिन राजाओंको छोड़ रक्खा
 था उन्होंने आन कर अपने राजाओंमें यह सब बातें कहदी ६२
 श्रीकृष्णके अभिपेक (सतरार) की बात सुन कर किन्ही
 राजाओंको हर्ष हुआ कुछ बड़े दीन होगए और कुछ उदासीन
 रहे ६३ इस प्रकार वह हाथी मनुष्य और घोड़ोंकी माला वाली
 राजमण्डली अभिपेकसे समुद्रकी समान क्षुब्ध होकर तीन भागों

राजसत्तमः । व्यतिक्रममचिन्त्यं च कृतं नृपतिना स्वयम् ॥६५॥
 विचिन्त्य गनसा राजन् दक्षमानेन चेतसा । जगाम नरदेवानां
 सभाजे प्रतियोधितुम् ॥ ६६ ॥ एतस्मिन्नन्तरे दूताः सम्प्राप्ताः
 क्रथकैशिकी । लोभवमुद्भृत्य शिरसा विविशुस्ते नृपार्णवम् ॥६७॥
 इति श्रीमहाभारते खिलेष्टु हरिवंशे विष्णुपर्वणि रुक्मिणीस्वयं-
 वरे एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

जनमेजय उवाच । हत्वा कंसं महार्चीर्षे देवैरपि दुरासदम् ।
 नाभिपिक्तः स्वयां राज्ये नोपविष्टो नृपासने ॥ १ ॥ कन्यार्थे
 चागतः कृष्णस्तत्रापि न कृनातिविः । अमानगतुलं प्रोप्य ज्ञात-
 वान् केन हेतुना ॥ २ ॥ विनतायाः सुतश्चैव महाबलपराक्रमः ।
 स चापि क्षमया युक्तः कारणं किमपेक्षितः । एतदाख्याहि भग-
 वान् परं कौतूहलं हि मे ॥ ३ ॥ वैशम्पायन उवाच । विदर्भ-

में बैठ गई ६४ राजसत्तम राजा भीष्मक अपने किये इस
 अचिन्त्य व्यतिक्रमसे राजाओंमें भेद पड़ा देख कर अपने मनमें
 जलता हुआ राजसभाजमें राजाओंके सम्भानेके लिये पहुँचा
 इसी समय (इन्द्रके) दूत क्रथ कैशिकके पास पहुँच गए और
 (इन्द्रके) लोभव ध्याज्ञापत्रको देकर राजसभाजमें चले गए ६५-६७
 उहञ्चासवाँ अध्याय समाप्त ४६

जनमेजयने कहा, कि-श्रीकृष्णने देवताओंसे भी दुरासद
 कंसको मार डाला था, तब भी उन्होंने अपना अभिषेक नहीं
 करवाया और गिहासन पर भी अपने आप नहीं बैठे ॥ १ ॥
 ऐसे कृष्ण उस समय कन्यार्थे लिये आये थे परन्तु उनका अतिथि-
 सन्कार नहीं हुआ ऐसा अनुचित अपमान होने पर भी उन्होंने
 क्षमा क्यों धारण कर रक्की थी ॥ २ ॥ और विनताके पुत्र भी
 तो महाबली और पराक्रमी थे वे भी क्षमा धारण करके
 किम बातही प्रतीक्षा कर रहे थे, इन सब बातोंका आप वर्णन

नगरीं प्राप्ते वैनतेये सहाय्युते । मनसा चिन्तयामास वासुदेवाय
 कैशिकः ॥ ४ ॥ दृष्ट्वाश्चर्यं हि नः सर्वान् राजानान् प्रवदाम्यहम् ।
 वसुदेवसृते दृष्टे ध्रुवं पापक्षयो भवेत् ॥ ५ ॥ विशुद्धभावः कृष्णस्य
 आवयोर्दृष्टतत्त्वतः । अतः पात्रतरः कोऽप्यस्त्रिषु लोकेषु विद्यते
 कृष्णात् कमलपत्रात्तद्देवदेवाञ्जनार्दनात् । तस्मिन् किं प्रदा-
 स्यात् अतिथ्यकरणे नृप ॥ ७ ॥ पात्रमासाद्य वै राजन् यथा
 धर्मो न लुप्यते । एवमन्योन्यसचिन्त्य भ्रातरौ क्रथनैशिकौ । द्रा-
 स्व, राज्यं दातुकामौ तु जगत्तुः, केन शान्तिकम् । देवमासाद्य तौ
 वीरौ विदर्भनगराधिपौ ॥ ६ ॥ ऊचतुस्तौ महाभागौ प्रणम्य
 करिये, सुभे बड़ा कुनूहल होरहा है ॥ ३ ॥ वैशम्पायनजीने
 कहा, कि—(कथ और कैशिकके ऊपर कृपालु होनेके कारण उन्हों
 ने जमा धारण कर रक्खी थी) जब श्रीकृष्ण गरुडजीके साथ
 विदर्भनगरीमें आए उस समय कैशिकने वासुदेवके संबन्धमें अपने
 मनमें विचार किया कि—॥४॥ हे राजन् ! मैं कृष्णके आश्चर्यरूप
 अभिषेकको देखनेके लिये राजाओंसे कहूँगा कि—वासुदेवके पुत्र
 के देखने पर हमारे पापका अक्षय ही क्षय होजायगा ॥ ५ ॥
 हमने श्रीकृष्णका तत्त्व देखा है उनके देखने पर उनका विशुद्ध
 भाव सब राजाओंमें होजायगा, अतः कमलपत्रकी समान नेत्रों
 वाले देवदेव जनार्दनसे अधिक तीनों, लोकोंमें और कौन पात्र
 हो सकता है अतः इनका अतिथिसत्कार करनेके लिये क्या वस्तु
 अर्पण/करना चाहिये ॥ ६ ॥ ७ ॥ क्योंकि—पेंसा करना चाहिये,
 जिससे पात्रके ध्याने पर हमारा धर्म लुप्त न हो, वे दोनों आना
 क्रथ और कैशिक इस प्रकार आपसमें विचार करके अपने
 राज्यको देनेकी इच्छासे श्रीकृष्णके पास चले, विदर्भनगरके
 स्वामी वे दोनों महाभाग वीर पुरुष श्रीकृष्णके पास पहुँचकर
 भगवानको शिरसे प्रणाम कर कहने लगे, कि—आज आपके

शिरसा हनिम् । अद्यावां सफलं जन्म अद्यावां सफलं यशः ।
 अद्यावां पितरस्तुता देवे चावां गृहागते ॥ १० ॥ चामरं व्यजनं
 द्युतं ध्वजसिंहासनं बलम् । स्फीतवोशा पुरी चयमात्राभ्यां
 मृदिना तव ॥ ११ ॥ उपेन्द्रस्त्वं महाबाहो देवेन्द्रेणाभिपिक्त-
 वान । आनामिह हि राज्यं त्वामभिपिक्तं ददामि ते ॥ १२ ॥
 आनयोयत्तु कृतं कार्यं बहुभिः पार्थिवैरपि । नैः शक्यतेऽन्यथा
 कर्तुं जरासन्धेने वा स्वयम् ॥ १३ ॥ शत्रुस्ते मागधो राजा जरा-
 सन्धो महोद्युतिः । कथान्ते ब्रुवते नित्यं नृपाणागभयमदः ॥ १४ ॥
 सिंहासनमनध्यांस्यं पुरं ज्ञास्ये न विद्यते । कथं राजसमाजे-
 ऽस्मिन्नास्यते देवकीसु ॥ १५ ॥ कृष्णोऽपि सुमहावीर्यो ह्यभि-
 मानी महाद्युतिः । न चागमिष्यते चास्मिन् कन्यार्थं च स्वयंवरं ॥ १६ ॥
 पार्थिवैर्पूजान्देषु स्वेषु सिंहासनेषु च । कथमास्यति नीत्रेषु, आस-

हमारे घर आगेपर हमारा जन्म और यश-सफल होगा और
 हमारे पितर तुम होगा ॥ १०-१० ॥ अब हमें अपना चामर
 पंखा और ध्वजा सिंहासन सेना धनसम्पन्न पुरी यह सब आप
 की सेवामें अर्पण करते हैं ॥ ११ ॥ हे महाशुभ्र ! आप उपेन्द्र
 हैं, देवेन्द्रे आपका अभिप्रेक किया गया, अब हम अपने राज्य
 पर आपका अभिप्रेक कर आपके अपने राज देते हैं ॥ १२ ॥
 बहुतोंसे राजा अपना जरासन्ध भी हम जिस कार्यको करेंगे उस
 को न लौट सकेंगे ॥ १३ ॥ मागधराज तुम्हारा शत्रु है और वह
 मंडाकांतिनाने जरासन्ध राजाओंको अभय देना हुआ बानचीन
 में वह बैठता है, कि-॥ १४ ॥ श्रीकृष्ण सिंहासन पर बैठनेके पात्र
 नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई नगर नहीं है अत एव यह देवकी-
 पुत्र राजसमाजमें कैसे बैठ सकते हैं ॥ १५ ॥ और महावीर्य-
 मान कृष्णभी तो अभिमानी हैं इसलिये वह कन्याके कारण
 स्वयंवरमें नहीं आवेंगे ॥ १६ ॥ क्योंकि-वह महाकान्तिवान्

नेपुः महाद्युतिः ॥१७॥ इति संचिन्तमानरतु शुन्वाऽसौ गीष्वातो
 नृपः । आश्रयोः सह सम्मग्न्य निग्रहोपशमार्थिना ॥१८॥ तत्र
 विश्रामहेतोर्हि कारितं दंष्ट्रहोत्तमम् । देवानामादिदिनोऽसि सर्व-
 लोकाङ्गणस्कृतः ॥१९॥ मानुष्ये गतर्गलोरेऽस्मिन् राजेन्द्रत्वं सगा-
 चर । समजो मनुजेन्द्राणां भाभूदासनसंकटम् ॥ २० ॥ विदर्भ-
 नगरे चैषा राजेन्द्रस्य दिचेष्टय । आस्यतामासने शुभ्रे श्वपिभाते
 महाद्युते ॥ २१ ॥ अत्रिवास्पाद्य ज्वात्मानं विप्रिष्टेन कर्मणा ।
 यथागमिष्यन्ति नृपाः करिष्ये देवशासनात् ॥ २२ ॥ एवमुत्तवा
 सुश्रेष्ठ मणिपत्य कृताञ्जना । प्रेषयामामतुर्वीरौ रङ्गमध्ये नृपै-
 र्वृते ॥ २३ ॥ एवं दूतस्यैवचनं यथोक्तं वज्रपाणिना । लिखित्वा
 पुरुष, जबे सब राजे अपने २॥सिंहासन पर बैठे होंगे तब नीचे-
 आसना पर कैसे बैठेंगे” ॥ १७ ॥ इस बातको सुने कर राजा
 भीमकेने विचार किया और उसने निग्रहको शान्त करनेके
 लिये हमारे साथ मंत्रणा करके यह उत्तम भवन आपके विश्राम
 करनेके लिये बनवा दिया है आप देवताओंके आदि देव है, सब
 लोक आपको प्रणाम करते है ॥ १८ ॥ १९ ॥ अतः आप मनुष्य
 लोकमें राजत्व क्या) राजेन्द्रत्वको प्राण्य करिये, ऐसा होने पर
 मनुष्येन्द्रोंके समाजमें आसनके विषयमें विवाद नहीं उठेगा २०
 इस लिये आप विदर्भनगरमें रह कर गरास्य आदिके राजेन्द्रत्व
 को विचलित करिये, इस लिये आज अ प (राज्याभिषेकके
 पूर्वार्द्ध) सस्कारको । शास्त्रानुसार करिये, फिर ह महाद्युते ।
 आप कल भक्तकाल शुभ्र सिंहासन पर बैठना तब देवशासन
 से अर्थात् पहिले अध्यायमें कहे इन्द्रके सदेशके अनुसार (आप
 के अभिषेकके समय) राजे वहाँ आना । उमी प्रणयका यत्न में
 करेगा ॥ २१ ॥ २२ ॥ इस प्रकार देवश्रेष्ठ श्रीकृष्णामे कहे उन
 को प्रणाम करनेके अनन्तर उन दोनों वीरोंने इन्द्रके उच नाम

सुमहातेजाः कैशिकः प्राह शासनम् ॥ २४ ॥ कैशिक उवाच ।
 विदितं वो नृपाः सर्वे नैनतेयसहान्युतः । आगतोऽतिथिरूपेण
 विदर्भनगरीं हरिः ॥ २५ ॥ प्राप्तमालोक्य पात्रोऽयमिति संचिन्त्य
 भूपतिः । प्रददौ वासुदेवाय स्वं राज्यं धर्महेतुना ॥ २६ ॥ इदमा-
 सनमाःस्वेति भ्रात्रा मे चोदिते ततः । वागुक्ता चाशरीरेण
 केनापि व्योमचारिणा ॥ २७ ॥ देवदूत उवाच । न युक्तमासनं
 दातुं त्वयासीन नराधिप । इदमस्यासनं दिव्यं सर्वरत्नविभूषि-
 तम् । जान्मूनदमयं शुभ्रं रचितं विश्वकर्मणा । प्रेषितं देवराजेन
 सिंहलक्ष्णलक्षितम् ॥ २८ ॥ अत्रोर्षावष्ट देवेशं चराचरनम-
 स्कृतम् । अभिषिचन्तु राजेन्द्रं बहुभिः पार्थिवैः सह ॥ ३० ॥

नाटेशको राजाओंसे व्याप्त रगस्थलमें भेज दिया २३ इन्द्रके कहे
 हुए इन्द्रके दूतके वचनको अपने आप पत्र पर लिख कर महा-
 तंजस्वी कैशिकने उस शासनाटेशको पढ़ना आरम्भ किया २४
 कैशिकने कहा, कि-हे राजाओं ! यह तो आपको विदित ही
 है. कि-भगवान् श्रीकृष्ण और गरुड़ विदर्भ नगरीमें अतिथिके
 रूपमें आये हैं २५ राजाने इनको पात्र समझ कर धर्मके कारण
 अपना राज्य वासुदेवके अर्पण कर दिया है २६ जब मेरे भाईने
 उनसे कहा था, कि-आप इस आसन पर विराजिये, उस समय
 किसी आकाशचारीकी आकाशनाणी हुई ॥ २७ ॥ देवदूतने कहा
 था कि-हे नराधिप ! तुमको अपना बैठे हुआ आसन इनको
 देना उचित नहीं है, इनके लिये तो इस दिव्य आसनको दो,
 यह आसन सहस्र रत्नोंसे विभूषित है, सुवर्णका बना हुआ है,
 उज्ज्वल है, विश्वकर्माका बनाया हुआ और मिर्होंके लक्षणोंसे
 लक्षित है ऐसे उम सिंहासनको देवराजने भेजा है २८-२९
 चर और अचर जी तोंसे नमस्कृत उस सिंहासन पर बैठे हुए इन
 राजेन्द्रका आप बहुतमे राजाओंको साथ लेकर अभिषेक

आगतः कुण्डिनगरे कन्याहेतुर्नराधिपाः । नागमिष्यति यः
 कश्चित् सोऽस्य वधो भविष्यति ॥ ३१ ॥ इमे चैवाष्टकलशा
 निभीनामंशसम्भवाः । अन्तया राजराजस्य धनेशस्य महात्मनः
 दिव्याः कौचनेरत्नाढ्या दिव्याभरणयोगिनः । राजेन्द्रस्याभि-
 पेकार्थमागच्छन्ति नृपैर्हृताः ॥ ३२ ॥ एष शकस्य सन्देशः
 कथितो वा नराधिपाः । लेखेनाहं तान् सर्वाभिरिचन्तु केश-
 वम् ॥ ३३ ॥ कैशिक उवाच । इति संनोय खस्थोऽसौ देवदूतो
 गतो दिवम् । दिव्यासनं च कृष्णाय बालार्कसदृशमभम् ॥ ३४ ॥
 तेनाहं नोदयिष्यामि भवद्भिर्ये समांगताः । दुर्निवार्यतरं घोरं
 शकस्य स्वर्गमीरितम् ॥ ३५ ॥ युष्माभिर्दर्शने युक्तमद्भुतं भुवि
 दुर्लभम् । कलशैरभिरिचन्तं स्वयमेव नभस्तेलात् ॥ ३७ ॥ इष्टा-

करिये ३० कुडिननगरमें कन्याके लिये आये हुए सब राजे
 अभिषेकमें आये; जो राजा यहाँ पर नहीं आयेगा; वह इनके
 हाथसे मारा जावेगा ३१ ये राजराज महात्मा कुवेरके निधियों
 के अंशसे उत्पन्न हुए आठ कलश हैं ३२ ये दिव्य हैं और
 सुवर्ण रत्नोंसे भरे हुए हैं और इनके आसन भी दिव्य हैं; यह
 राजेन्द्रके अभिषेकके लिये राजाओंके साथ आ रहे हैं ३३
 हे राजाओं ! यह इन्द्रका संदेश तुमसे कह दिया, अब इस लेख
 के अनुसार सब राजाओंको बुला कर आप केशवका अभिषेक
 करिये ३४ कैशिकने कहा; कि आकाशमें स्थित देवदूत; इस
 प्रकार कह कर और श्रीकृष्णके लिये बालमूर्त्यकी समान कान्ति
 वाले आसनको देकर स्वर्गको जला गया ३५ इस कारण मैं
 आप आये हुए राजाओंसे शकके अपने आप कहे हुए इस
 दुर्निवार्य कड़े शासनादेशको कहता हूँ ३६ इनके ऊपर आकाश
 से अपने आप कलशोंसे अभिषेक होगा पृथ्वीमें ऐसा दृश्य
 दुर्लभ है ३७ इस आश्चर्यको देख कर तुम्हारा पाप जय अवश्य

अर्चय हि नः सर्वो ध्रुवं पापक्षयो भवेत् । स्नापनार्थं च कृष्णाय
 देवदेवाय विष्णवे ॥ ३८ ॥ आगच्छ च नृपश्रेष्ठा न भयं कर्तु-
 मह्य । आनयोः कृतमन्धानो युष्मदर्थं जनार्दनः- ॥ ३९ ॥ सर्वेषां
 मनुजेन्द्राणामभयं कुरुते हरिः । विशुद्धभावः कृष्णस्तु आवयो-
 र्दृष्टतत्त्वतः ॥ ४० ॥ मागधस्य विशेषेण न वैरं हृदि हरयते ।
 यदत्र कारणं कार्यं तद्भवद्विर्विचिन्त्यनाम् ॥ ४१ ॥ वैशम्पायन
 उवाचः पर्वं संचिन्तयामासु नृपाः शापभयादिताः । भूयः शुश्रुवु
 राजेन्द्राः केशवाय महात्मने ॥ ४२ ॥ मेघमभीरनादेन स्वरेणा-
 पूरयन्नभः । बाहूनाभशरीरेण देवराजस्य शासनात् ॥ ४३ ॥
 चित्रांगद उवाच । त्रैलोक्याधिपतिः शकः प्रजापालनहेतुना ।
 आज्ञापयति युगाकं नृपाणां हितकाम्यया ॥ ४४ ॥ न-युक्तं

होजावेगा हे श्रेष्ठ राजाओं । अब तुम देवदेव कृष्णरूप विष्णु
 को स्नान करानेके लिये चलो, इस समय तुम डरो मत, क्यों
 कि-तुम्हारे लिये हमने श्रीकृष्णको समझा करान्धि कर ली
 है ३८-३९ भगवान्ने सब राजाओंको अभय (वचन) दे दिया
 है, कृष्णका भाव विशुद्ध है, हमदोनोंने उनका तत्त्वदेख लिया
 है ४० इस समय मागधराजके चित्तमें भी श्रीकृष्णकी ओरसे
 विशेष वैर प्रतीत नहीं होता है, अतः अब आप जिस कार्यको
 करना उचित समझते हैं उसका विचार करिये ४१ वैशम्पायन
 ने कहा, कि-तब तो राजा शापके भयसे पीड़ित होकर चिंता
 करने लगे, कि-महात्मा केशवके विषयमें देवराजके शासनसे
 फिर आकाशवाणी हुई उन राजेन्द्रोंने सुना कि-मेघकी समान
 गंभीर शब्दसे आकाशका पूर्ण करती हुई आकाशवाणी हो रही
 है ४२-४३ (आकाशवाणीमें) चित्राङ्गदने कहा, कि त्रिलोकी
 का राजा इन्द्र प्रजापालनके निमित्त और तुम्हारा हित करनेके
 लिये तुम राजाओंको आज्ञा देता है, कि-४४ तुम कृष्णके साथ

वसतान्योन्यां कृष्णेन सह वौरिणा । वसन्तं प्रीतिमुत्पाद्य स्व
 राष्ट्रेषु नृलोचनाः ॥ ४५ ॥ प्रणवतिहरः कृष्णः प्रतिसेनान्त-
 कोऽनन्तः । अनेन सह सम्प्रीत्या भेदं वं विगतज्वराः ॥ ४६ ॥
 मानुषाणां नृणां देवा नृणाणां देवताः सुराः । सुराणां देवता
 शक्रः शक्रस्यापि जनार्दनः ॥ ४७ ॥ एष विष्णुः प्रभुर्देवो देवा-
 नामपि देवाम् । जातोऽयं मानुषैः लोके नररूपेण केशवः ४८
 अजेयः सर्वलोकेषु देवदानवमानवैः । कार्तिकेयसहायस्य अपि
 शूलभृतः स्वयम् ॥ ४९ ॥ तस्मै देवाग्निदेवाय केशवाय महा-
 त्पने । अभिषेक्तुं सुरैः सार्धं किमिच्छेयमतः परम् ॥ ५० ॥
 न चाधिकारो देवानां राजेन्द्रस्याभिषेचने । तेनाहं नाभिषिचामि
 सर्वलोकनमस्कृतम् । नृणाणां अधिकारोऽयं राजेन्द्रस्य निवेशने ५१
 गत्वा यूयं विदध्यां कथकैशियोः सह । संचिन्त्य विधि

वैरभाव रख कर (पृथिवीमें) निवास करो, यह उचित नहीं है,
 वे राजाओं ! तुम श्रीकृष्णसे भीति कर अपने रं राज्योंमें रहे ४५
 श्रीकृष्ण नमने वाला दुःखोंको हर लेते हैं और जो इनके ऊपर
 सेना चढ़ा लागा है, उसके लिये ये अग्नि और यमराजकी
 समान होजाते हैं तुम इनके साथ भीति सम्पादन कर चिन्ता
 रहित होकर आनन्द करो ॥ ४६ ॥ राजा मनुष्योंके देवता हैं, इन्द्र
 सुरोंका देवता है और जनार्दन इन्द्रके भी देवता है और यह
 देवताओंके भी देवता मधु विष्णु नररूपसे मनुष्यलोकमें उत्पन्न
 हुए हैं ४७ शिवजी कार्तिकेय और तीनों लोकोंके देवता दानव
 और मनुष्य भी इनको नहीं जीत सकते ॥ ४८ ॥ इन देवाग्निदेव
 महात्मा । केशवके अभिषेक करनेसे अधिक और किस वस्तुकी
 इच्छा होसकती है ५० राजेन्द्रको अभिषेक करनेका देवताओंको
 अधिकार नहीं है, इसी लिये मैं सब लोकोंसे मणाम पानेयोगी
 पुरुषका स्वयं अभिषेक नहीं करता हूँ राजेन्द्रके अभिषेक करनेका

दृष्टेन कुरुध्वं नृपसत्तमाः ॥ ५२ ॥ प्रीतिसन्धानकालोऽपमिति
 संविन्दत्य वासवः । वीरनार्थं विसृष्टोऽहं युष्माकं मनुजेश्वराः ५३
 विदर्भनगरे कृष्णः, श्रावितोऽस्याधिवासनम् । -राजेन्द्रत्वाभि-
 पेकार्यं राजानौ क्रथकैशिकौ । ताभ्यां सह नृपश्रेष्ठाः कृत्वा सु-
 महदुत्सवम् । ५४ ॥ अभिपेकेण मन्कृत्य प्रतिशृष्टास्य दक्षि
 णाम् । आगभिष्यथ संहृष्टाः पुनरेव स्वयम्बरम् ॥ ५५ ॥ जरा-
 सन्धः सुनीथश्च रुक्मी चैव महारथः । शान्वः, सौभपतिश्चैव
 चत्वारो राजमत्तमाः ॥ ५६ ॥ उद्गस्याशुन्यहेतोर्हि तिष्ठन्तु इह
 पार्थिवाः । शैशम्पायन उवाच । । एवमाज्ञां सुरेशस्य श्रुत्वा
 चित्रांगदेरिताम् । गमनाय मनि चक्रुः सर्व एव नृपोत्तमाः ५७
 अनुज्ञाता नरेन्द्रेण जरासन्धेन धीमता । भीष्मक पुरतः कृत्वा

अधिकार राजाओंको ही है ॥ ५१ ॥ आप क्रथ और कैशिक
 के साथ विदर्भनगरीमें जाकर शास्त्रानुसार कर्म (अभिपेक)
 करिये, हे राजाओं ! यह प्रीति संपादन करनेका समय है, यह
 विचार कर उन्होंने मुझें तुम्हारे पास भेजा है ५३ विदर्भनगरमें
 श्रीकृष्णके अधिवासन(राज्याभिपेकसे पहिले होनेवाला)संस्कार
 घोषित कर दिया गया है अतः, हे नृपश्रेष्ठों ! तुम क्रथ और
 कैशिकके साथ इनका अभिपेक करनेके लिये जाओ और बड़ा
 भागी उत्सव करके उनका अधिपेकसे सत्कार करके और, उनकी
 मद क्षणा करके फिर प्रसन्न होते हुए स्वयम्बरमें चले आना ५५
 रगस्थल शुन्य न रहे इस लिये, जरासंध सुनीथ, महारथी रुक्मी
 और, सौभपति, शान्व ये चार श्रेष्ठ राजे यहाँ पर, बैठे रहे, शैशं-
 पायनजीने कहा, कि- इस प्रकार चित्रांगदरी कही, हुई, सुरेश
 की आज्ञाको सुन कर सब राजाओंने चलनेका विचार
 किया ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ तदनन्तर राजा जरासंधके अनुमति देने
 पर सब राजे भीष्मकको आगे करके अपनी २ सेनाओंको लेकर

प्रयाताः स्ववर्णवृत्ताः ॥ ५८ ॥ भीष्मकश्च महाबाहुः स्वबलेन
समन्वितः । जगाम पार्थिवैः सार्धं दक्षिणानेन चेतसा ॥ ५९ ॥
यत्र कृष्णो महाबाहुः कैशिकस्य निवेशने । दूरादेव प्रकाशन्ती
पताकाध्वजमालिनी ॥ ६० ॥ शुभा देवसभा रम्या स्नानहेतो-
रिहागता । दिव्यरत्नपभाकीर्णा दिव्यध्वजसमाकुला ॥ ६१ ॥
दिव्याम्बरपताकाढ्या दिव्यामरणभूषिता । दिव्यस्रग्दामकलिला
दिव्यगन्धाधिवासिता ॥ ६२ ॥ विगानयानैः श्रोमद्भिः सगन्तात्
परिवारिता । दिव्याप्सरोगणारचैव विश्राधरगणास्तथा ॥ ६३ ॥
गन्धर्वा मुनयरचैव किन्नराश्च समन्ततः । उपगायन्ति देवेशमं-
वान्तरमाश्रिताः ॥ ६४ ॥ स्तुवन्ति मुनयश्चैव सिद्धाश्च परमर्षयः ।
देवदुन्दुभयरचैव स्वयमेवानदन् दिवि ॥ ६५ ॥ पञ्चयोनिसमु-

चले ॥ ५८ ॥ उस समय महाबाहु भीष्मक भी अपनी सेनाको
साथ ले मनमें जलतासा हुआ राजाओंके साथ चला ५९ भीष्मक
जहाँ पर कैशिकके भवनमें श्रीकृष्ण विराजमान थे तहाँ पर
पहुँचे तहाँ पर स्नानके निमित्त देवताओंकी शुभ सभा एकनित
हुई थी, वह पताका ध्वजाओंकी माला वाली सभा दूरसे ही प्रका-
शित होरही थी, उसमें दिव्य रत्नोंकी प्रभा फैल रही थी और
दिव्य ध्वजाएँ फहरा रहीं थी, और वह दिव्य आभरणोंसे
विभूषित होरही थी, और तहाँ बहुतसे द्वार शोभा देरहे थे और
यह सभा दिव्य गंधसे महक रही थी और शोभायमान विगानों
से चारों ओरसे ब्यारही थी इस प्रकार खड़े आकाशमें स्थित
दिव्य अप्सरारों विश्राधर गंधर्व मुनि और किन्नर तहाँ गान कर
रहे थे ॥ ६०-६४ ॥ उस समय महर्षि मुनि और सिद्ध स्तुति
कर रहे थे और आकाशमें देवदुन्दुभियें अपने आप वज रही
थी ॥ ६५ ॥ और देवता आकाशमें खड़े होकर मंदार पारि-
जातक सन्तान कल्पवृक्ष और हरिचन्दन नाम वाले पाँच वृक्षोंसे

त्यानि गन्धचूर्णान्यनेकशः । समन्तात् पात्यमानानि चाकाश-
 स्थैर्दिवीकसैः ॥६६॥ स्वयमागत्य देवेन्द्रो देवैः सह शचीपतिः ।
 विमानवरमारुह्य सप्रकाशः स्थितोऽवरे ॥ ६७ ॥ अष्टौ ये लोक-
 पालास्ते स्वामु दिक्षु समास्थिताः । उपगायन्ति नृत्यन्ति स्तु-
 वन्ति च समन्ततः ॥ ६८ ॥ श्रुत्वा सुहृद्दुलं नादं सर्व एव नरा-
 धिपाः । विस्मयोःफुल्लनयना विविशुस्ते सभां शुभाम् ॥ ६९ ॥
 कैशिकश्च महाबाहुरूपगम्य नराधिपान् । प्रवेशायामास बली प्रति-
 पूज्य यथाविधि ॥ ७० ॥ निवेदिते सुरश्रेष्ठे पार्थिवानां समागमे ।
 निर्जगाम हरिः श्रीमान् सर्वमद्भुतपूजितः ॥७१॥ ततोऽवरस्थास्ते
 दिव्याः कलशाश्चैलकण्ठिनः । सहकारसमायुक्ता ववर्षुर्जलदा
 इव ॥ ७२ ॥ दिव्यकाननरत्नौर्धैर्दिव्यपुष्पसमन्वितैः । गन्धचूर्ण-
 विभिश्चैश्च राजेन्द्रस्यागिपेचने ॥ ७३ ॥ यथोक्तविधिपूर्वेण अभि-
 उत्पन्न हुए गन्धकं अनेक चूर्णोंको वरसा रहे थे ॥ ६६ ॥ और
 तहाँ पर देवताओंको साथमें लेकर शचीपति इन्द्र भी विमानमें
 बैठ कर आये थे आकाशमें उनका प्रकाश फैल रहा था ६७
 और आठों लोकपाल भी तहाँ अपनी २ दिशाओंमें खड़े हुए गा
 रहे थे स्तुति कर रहे थे और चारों ओर नाच रहे थे ॥ ६८ ॥
 उस तुमुल नादको सुन कर सब राजाओंके नेत्र विस्मयके कारण
 खिल उठे और वह उस शुभ मभामें घुमे ॥ ६९ ॥ उस समय
 महासुन बलवान् कैशिक उनका शास्त्रानुसार सत्कार कर उन
 सब राजाओंको राजसभामें प्रवेश कराता जाता था ॥ ७० ॥
 जब श्रीकृष्णसे यह निवेदन किया, कि सब राजसभाज आगया
 है, तब सम्पूर्ण मंगलोंसे सुपूजित श्रीमान् कृष्ण वाहर निकले ७१
 उस समय आकाशमें स्थित आम और अँगोठे वाले दिव्य
 कलशोंमेंसे मेघोंकी समान जल बरसने लगा ॥ ७२ ॥ इस
 प्रकार (उन फलशौने) दिव्य सुवर्ण रत्न और दिव्य पुष्प और

विद्युज्जनादन्म । दर्शयित्वा नरेन्द्राणां दिव्यैराभरणैः शुभैः ७४
 दिव्याम्बरविचित्रैश्च दिव्यगन्धानुलेपनैः । सत्कृत्य विधि-
 चद्राप्त उपविष्टो जनार्दनः ॥ ७५ ॥ शुभे देवसभे रम्ये स्नान-
 हेतोरिहागते । उपास्यगानो यदुधिर्विदग्धैश्च नराधिपैः ॥ ७६ ॥
 वैनतेयश्च बलवान् कामरूपी नराकृतिः दक्षिणं पार्ष्वमाश्रित्य
 आसनस्थो महाबलः ॥ ७७ ॥ क्रथकैशिकौ च वीरौ तौ वाग-
 पार्श्वे तथाऽऽसने । उपविष्टौ महात्मानो देवस्यानुमते वृषौ ७८
 तथैव वागपार्श्वे तु वृष्णयन्धकमहारथाः । सात्यकिममुखा वीरा
 उपविष्टा महाबलाः ॥ ७९ ॥ भास्करपतिमे दिव्ये दिव्यास्तरण-
 विस्तृते । सुखोपविष्टं श्रीगन्तं दैवोरिव शचीपतिम् ॥ ८० ॥

सुगंधित चूर्णसे मिले पदार्थ वरसा कर राजेन्द्रके अभिषेकके
 समय भगवान्का शास्त्रोक्त अभिषेक करके उन्होंने श्रीकृष्णको
 अलंकृत किया था, तदनन्तर भगवान् विष्णु आये हुए राजाओं
 का दिव्य आभरण शुभ और दिव्य वस्त्र और दिव्य गंध तथा
 चन्दनोंसे शास्त्रानुसार सत्कार करके बैठ गए ॥ ७३-७५ ॥
 शुभ्र और रमणीय देवसभामें अभिषेकके लिये श्रीकृष्णके आने
 पर यादव और विदर्भराजे उनकी उपासना करने लगे ॥ ७६ ॥
 उस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाबली गरुड़जी
 मनुष्यका रूप धारण करके श्रीकृष्णके दक्षिणी ओर आसन पर
 बैठ गए ॥ ७७ ॥ और वीरवर महात्मा क्रथ और कैशिक
 भगवान्की अनुमतिसे उनके बाईं ओर आसन पर बैठ गए ७८
 इसी प्रकार महाबली वीर महारथी सात्यकि आदि वृष्णिवंश
 के और अन्धरुवंशके महारथी उनके बाईं ओर बैठ गए ॥ ७९ ॥
 भगवान् श्रीकृष्ण दिव्य विद्यावन वाले सुवर्णकी सभामें दिव्य
 सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे थे, उस समय जैसे देवता इन्द्रको
 बताते जाते हैं, इसी प्रकार मंत्री (राजाओंको) बताते जाते थे,

सचिवैः श्राविताः सर्वे प्रविष्टास्ते नराधिपाः । यथाह्येण च संपूज्य
 राजानः सखे एव ते ॥ ८१ ॥ मुखोपविष्टास्ते स्वेषु आसनेषु
 नराधिपाः । कैशिकस्तु महाप्राज्ञः सर्वशास्त्रार्थवित्तमः ॥ ८२ ॥
 पूजयित्वा यथान्यायमुवाच वदताम्बरः । कैशिक उवाच । अवि-
 ज्ञाता नृपाः सर्वे मानुषोऽयमिति प्रभो ॥ ८३ ॥ भवन्तमृपहृद्धानां
 देव त्वं जन्तुमर्हसि । श्रीकृष्ण उवाच । न मे वीरो भवसति एका-
 ह्मपि कैशिक ॥ ८४ ॥ विशेषेण नरेन्द्राणां ज्ञानधर्मं व्यवस्थिते ।
 योद्धव्यमिति धर्मेण अघर्मे तु पराङ्मुखे ॥ ८५ ॥ तेषां किं
 हेतुना कोपः कर्तव्यस्तत्त्ववनीश्वराः । यद्गतं तदतिक्रान्तं ये मृतास्ते
 दिवं गताः ॥ ८६ ॥ एष धर्मो नृलोकैस्मिन् जायन्ते च त्रियन्ति

इस प्रकार मंत्रियोंके बताने पर सब राजे तहाँ पर घुसे, वे राजे
 वचित रीतिसे श्रीकृष्णका सत्कार करके अपने २ आसनों पर
 मुखपूर्वक बैठ गए, तदनन्तर वक्ताओंमें श्रेष्ठ और सब शास्त्रों
 को जानने वाले बुद्धिमान् कैशिकने श्रीकृष्णकी यथोचित पूजा
 कर कहा । कैशिकने कहा, कि-हे प्रभो ! ये सब राजे ज्ञानहीन
 हैं इस लिये ये आपको मनुष्य समझते थे ॥ ८०—८३ ॥ हे
 देव ! आपका अपराध करने वाले इन राजाओं पर आप जमा
 करिये श्रीकृष्णने कहा, कि-हे कैशिक ! मेरा क्रोध तो एक
 दिन भी नहीं रहता है ॥ ८४ ॥ और राजाओं पर तो मैं
 विशेषतः क्रोध नहीं कर सकता क्योंकि-वह ज्ञानधर्मका पालन
 करने रहते हैं, युद्ध करना उनका धर्म है और पराङ्मुख होना
 अधर्म है ॥ ८५ ॥ अतः अब-वीश्वरों ! उनके ऊपर क्रोध किस
 कारण किया जाय, अब जो बीत गया वह बीत गया और जो
 मर गए वे स्वर्गमें चले गए ॥ ८६ ॥ मनुष्य उत्पन्न होते हैं
 और मरते हैं, यह तो इस मनुष्यलोकका धर्मही है, इस लिये
 जो राजे पर गए आपको उनका शोक नहीं करना चाहिये,

च । तस्मादशोच्यं भवतां मृतार्थे च नराधिपाः । क्षन्तव्यं रोच-
तेऽस्माक वीतवैरा भवन्तु ते ॥ ८७ ॥ वैशम्पायन उवाच । एव-
मुक्त्वा नरेन्द्रास्त्रानाश्वास्य मधुमुदनः । कैशिकस्य मुख वीक्ष्य
विरराम महाद्युतिः ॥ ८८ ॥ एतस्मिन्नेव काले तु भीष्मको नय
कोविदः । पूजयित्वा यथान्यायमुवाच वदतां वरः ॥ ८९ ॥
इति श्रीमहाभारते ग्विलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि रुक्मिणीस्वयं-
वरे पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥

भीष्मक उवाच । पुत्रो मे बालभावेन न भगिनी दातुमिच्छति।
स्वयंवरे नरेन्द्राणां न चाहं दातुमुत्सहे ॥ १ ॥ अतीव बालभाव-
त्वाद्दातुमिच्छेन्मतिर्गम । एकमेका समालोक्य वरयिष्यति मे मतिः
अतः प्रसादयिष्ये त्वां पुत्रदुर्नयहेतुना । प्रसादं कुरु देवेश क्षन्तु-
मर्हसि मे मभो ॥ ३ ॥ श्रीकृष्ण उवाच । बालभावेन पुत्रेण

अब तो हमें क्षमा करना ही अच्छा लगता है अब सब राजाओं
को वैर छोड़ देना चाहिये ॥ ८७ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-
महाद्युतिमधुमुदन राजाओंसे इस प्रकार कह कर और उनको
आश्वासन देकर कैशिकका मुल देख चुप हो गए ॥ ८८ ॥
इसी समय नीतिशास्त्रचतुर वक्ताओंमें श्रेष्ठ भीष्मकने श्रीकृष्ण
की यथांचित पूजा करके एक भाषण दिया ॥ ८९ ॥ पचासवाँ
अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥

भीष्मकने कहा, कि मेरा पुत्र बालस्वभाववश अपनी बहिन
आपको नहीं देना चाहता और राजाओंके स्वयंवरमें मैं भी आपको
कन्या देना ठीक नहीं समझता, क्योंकि मेरा विचार है, कि स्वयंवर
में कन्या देना बड़ा बालकपन है एकका एकको वरना ही मुझे
युक्तियुक्त मतीत होता है ॥ १ ॥ २ ॥ अब मैं पुत्रकी दुर्नीतिके
कारण आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, हे देवेश ! अब आप
क्षमा करिये हे मभो ! अब आप प्रसन्न हूजिये ॥ ३ ॥ श्रीकृष्ण

चालितं नृपमण्डलम् । यदा भवति वै मौढः कीदृशोऽविनयो
 भवेत् ॥ ४ ॥ सूर्गेन्दुमदृशांल्लोकास्तपसोपार्जितत्रियः । लोके-
 ऽस्मिन्नरदेवानां महाकुलसमुद्भवान् ॥५॥ एकस्यापि नृपस्याग्ने
 मोहाद्यो वितथं वदेत् । न स तिष्ठति लोकेस्मिन्निर्दहेद्दृष्टवन्दिना
 एव धर्मो नरेन्द्राणामिति ते विदितं मभो । लोकधर्मं पुरस्कृत्य
 पुरा गीतं स्वयम्भुवा ॥ ७ ॥ कथं तव सुतस्तेपामग्रतो मनुजे-
 श्वर । वक्तुमर्हति राजेन्द्र वितथं राजसंसदि ॥ ८ ॥ तादृशं
 रक्षमत्तुलं कारयंस्तनयस्तव । कथं त्वया ह्यविज्ञात इति मे संशयो
 महान् ॥ ९ ॥ आगतानां नरेन्द्राणामनलाकेंदुवर्चसाम् । यथा-
 ह्येण तु संपूज्य आतिथ्यं कृतवानसि ॥१०॥ रथाश्चनरनागानां

ने कहा, कि-तुम्हारे पुत्रने बालकपनसे राजमण्डलीको विचलित
 कर दिया है, परन्तु उसने मौढ होने पर भी यह अविनय कैसे
 किया (अब तो समझ बूझ कर कार्य करना चाहिये था) ४
 महाकुलमें उत्पन्न होनेसे विश्वजित् आदिसे मिलने वाले तपसे
 उपार्जित लक्ष्मी वाले सूर्य और चन्द्रमाकी समान आभा वाले
 लोकोंको (झूठ बोलने वाला) यमदण्डकी अग्निसे भस्म कर
 डालता है ॥ ५ ॥ जो पुरुष एक राजाके सामने भी मोहवश
 झूठ बोलता है वह इस लोकमें भी नहीं रह सकता क्योंकि-यम-
 दण्डकी अग्निसे और लोकोंके साथ उसका यह लोक भी भस्मे
 होजाता है अतः वह इस लोकमें भी नहीं रह सकता ॥ ६ ॥
 ब्रह्माजीने पहिले धर्मको आगे करके राजाओंके इस धर्मको पहिले
 कहा था ७ हे मनुजेश्वर ! उन सबके सामने तुम्हारा पुत्र राज
 सभामें झूठी बात कैसे कहेगा ८ आपके पुत्रने ऐसा बड़ा भारी
 राजसमाज जोड़ लिया, फिर भी यह बात पहिलेसे आपसे छिपी
 कैसे रही, इस बातका मुझे बड़ा संदेह है ९ आपने आये हुए
 अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाकी समान कान्ति वाले राजाओंका

विमर्दमतुलं तथा । कथं न ज्ञातवान्नाजंस्तव पुत्रस्य चेष्टितम् ११
 विपादो न भवेदत्र चतुरंगवत्लागमे । कथं न ज्ञायते राजन्निति
 मे बुद्धिसंशयः ॥ १२ ॥ ममागमनमेवेह प्रायेण न हितं तव ।
 अतो न कृगमातिथ्यमपात्राय नरेश्वर ॥ १३ ॥ पात्रेभ्यो दीयतां
 कन्या मामपास्य नरेश्वर । ममागमनदोषेण कथं कन्यां न
 दास्यसे ॥ १४ ॥ कन्याविघ्नं च कुर्वाणो नरके परिपच्यते ।
 इति धर्मविद्वैर्गीतं मन्वादिधिर्नरोत्तमैः ॥ १५ ॥ अनोर्यं न प्रविष्टोऽहं
 रंगमभ्ये विशांपते । विदित्वा न कृतातिथ्यं नरदेव तत्रालगम् १६
 द्विपाभिभूतो राजेन्द्र पार्श्विनोऽहं नराधिप । विदर्भनगरे राजन्

यथोचित सत्कार किया है (अतः यह सब पुत्रका अपराध
 है ऐसा तुम्हारा कहना झूठ ही है) १० हे राजन् ! तुम्हारे अपने
 पुत्रकी चेष्टासे हाथी घोड़े रथ और मनुष्योंका अतुलित संहार
 हुआयगा, इस बातको तुमने क्यों नहीं समझा ११ यहाँ पर
 चतुरङ्गिणी सेनाके आने पर विपाद फैल जावेगा इस बातको
 आपने क्यों नहीं समझा, इसका हमें बड़ा भारी संदेह है १२
 हे नरेश्वरामेरा गहाँ आना ही तुम्हारे लिये अहितकर होगा इसी
 लिये हे राजन् ! तुमने मुझ अपात्रका अतिथिसत्कार नहीं किया
 है ॥ १३ ॥ हे नरेश्वर ! तुम मुझे दूर करके पात्रोंको कन्या दो,
 मेरे आगमनके दोषसे तुम अपनी कन्याको दूसरोंको क्यों न
 दोगे १४ मनु'आदि धर्मवेत्ताओंने कहा है, कि-कन्याके कार्यमें
 विघ्न डालने वाला नरकमें पड़ा करता है, १५ इसी लिये
 हे राजन् ! मैं रंगमथलमें नहीं गया था, हे नरदेव ! मैंने इसी बात
 को जान कर तुम्हारे घर आकर तुम्हारा अतिथिसत्कार
 ग्रहण नहीं किया था १६ हे राजन् ! मैंने अपनी सेनाको विदर्भ-
 नगरमें ठहरा दिया है, इस लिये हे राजन् ! मैं राजा होकर भी
 लज्जित होरहा हूँ (अर्थात् मैं यहाँ विश्राम न करआपके यहाँ ठहरता

बलविश्रामहेतुना ॥ १७ ॥ आत्राभ्यां कृतमातिथ्यं कैशिकस्तु
 प्रियातिथिः । उषितो च यथा स्वर्गे पुरा गरुडकेशवी ॥ १८ ॥
 वैशम्पायन उवाच । एवमेवं ब्रुवाणन्तं कृष्णं वाग्ब्रजचोदितम् ।
 श्लक्ष्णवाचाम्बुनाऽऽसिच्य शमितेऽग्निरिव ज्वलन् ॥ १९ ॥
 भीष्मक उवाच । प्रसीद देवलोकेश पाहि मां लोकशासन ।
 अज्ञानतममाविष्टं ज्ञानचक्षुष्मदो भव ॥ २० ॥ मानुष्ये मांसचक्षु-
 ष्ट्वादसम्पग्निदिता वयम् । न प्रसिद्ध्यन्ति कर्माणि क्रियताम-
 विचारणात् ॥ २१ ॥ भवन्तं शरणं प्राप्य देवानामपि देवतम् ।
 सम्पग्भवतु मे दृष्टिः संपश्यन्तु च मे क्रियाः ॥ २२ ॥ अनिष्प-
 न्नामपि क्रियां नयोपेता विचक्षणाः । फलदां हि प्रकुर्वन्ति महा-

तो आपसे पूजा न पानेका अपमान मुझे न सहना पड़ता) १७
 फिर भी हमारा अतिथिसुत्कार तो हो ही गया क्योंकि-कैशिक
 अतिथियों को प्रिय समझता है, (इसके घरमें) हम स्वर्गमें
 गरुड़ और विष्णुके रहनेकी समान (सुखपूर्वक) रहे हैं १८
 वैशम्पायनजीने कहा, कि भीष्मकने अग्निकी समान प्रज्वलित
 वाग्ब्रजसे मेरत कृष्णको इस प्रकार कहते देख कर उनको भीठी
 वाणीसे सींच कर शान्त कर दिया ॥ १९ ॥ भीष्मकने कहा,
 कि- हे देवलोकेश मसन्न हूजिये, हे लोकशासन । मेरी रक्षा
 करिये, मुझ अज्ञानरूपी अंधकारसे घिरे हुए को ज्ञानरूपी नेत्र
 के देने वाले बनिये ॥ २० ॥ हम मनुष्य हैं, इसी लिये मांसकी
 चक्षु होने के कारण हम कुछ का कुछ देखते हैं, अतः हमारे
 किये हुए कर्मभी ठीक न सिद्ध नहीं होते है, क्योंकि वे अवि-
 चारमय होते हैं ॥ २१ ॥ आप देवताओंके भी देवता है आप
 से पुरुषकी शरणमें आकर मेरी दृष्टि तत्त्वस्तुको देखने वाली
 होजाय और मेरी क्रियाएँ भी पूर्ण होजाँय (ऐसा आशीर्वाद
 दीजिये) २२ विचक्षण पुरुष अनिष्पन्न क्रियाको भी महासेना

सेनापतिर्यथा ॥ २३ ॥ भवन्तं शरणं प्राप्य नातिवाधति मे भयम् ।
 यन्मया चिन्तितं कार्यं तद्भवाञ्छ्रोतुमर्हसि ॥ २४ ॥ न दातु-
 मिच्छेत् कन्यां वै पार्थिवेभ्यः स्वयम्बरे । प्रसादं कुरु देवेश न
 कोपं कर्तुमर्हसि ॥ २५ ॥ श्रीकृष्ण उवाच । वचनेन किमुक्तेन
 त्वया राजन् महामते । स्वकन्यां दास्यसे नेति कोऽत्र नेता त्वान-
 नघ ॥ २६ ॥ मां देहीति न चाख्येयं ददस्वेति न मे वचः ।
 रुक्मिण्या दिव्यमूर्तित्वं संबन्धे कारणं मम ॥ २७ ॥ मेरुकूटे पुरा
 देवैः कृतमंशावतारणम् । तदा निष्टृष्टा सा पूर्वं गच्छ त्वं पतिना
 सह ॥ २८ ॥ गान्धुप्ये कुण्डिनगरे भीष्मकस्याग्नोदरे । जायस्व
 विपुलश्रोणि मत्पवेद्य च वासवम् ॥ २९ ॥ तेनाहं वः प्रव-

पतिकी समान फल देने वाली कर देते हैं २३ आपकी शरणमें
 आने पर अब मुझे अधिक भय नहीं लगता है, अब मैंने जिस
 बातको सोच रक्खा है उसको आप सुनिये २४ मैं अपनी कन्या
 का स्वयंवरमें दान करना नहीं चाहता, हे देवेश ! आप दया
 करिये, कोप न करिये २५ श्रीकृष्णने कहा, कि-हे महागते
 राजन् ! आपसे बहुतसी बातें करनेसे क्या लाभ, आप अपनी
 कन्या नहीं दोगे, परन्तु उसके लिये हे अनघ ! आपका कोई नेता
 नहीं बन सकता अर्थात् आपकी कौन रोक सकता है ? २६
 मैं आपसे यह भी नहीं कहता, कि-“आप मुझे अपनी कन्या
 न दीजिये और मैं यह भी नहीं कहता, कि-आप अपनी कन्या
 मुझे दीजिये” रुक्मिणी दिव्य मूर्तिवाली हैं. इस कारण ही उस
 का मेरे साथ संबन्ध होगा (इसी लिये मैं त्रिमा धारण किये
 हुए बैठा हूँ) ॥ २७ ॥ पहिले मेरुकूटमें देवताओंने अंशावतार
 लेनेका निश्चय किया था उस समय (लक्ष्मीसे) कहा गया था,
 कि-हे विपुलश्रोणि ! तू इन्द्रके ऊपर कृपा करके अपने पति
 (विष्णु) के साथ मनुष्यका शरीर धारण कर और कुण्डिननगर

च्यामि राजन्नकृतकं वचः । श्रुत्वा स्वयं विनिश्चित्य यद्युक्तं
 तत्करिष्यति ॥ ३० ॥ रुक्मिणी नाम ते कन्या न सा प्राकृत-
 मानुषी । श्रीरेषा ब्रह्मवाक्येन जाता केनापि हेतुना ॥ ३१ ॥
 न च सा मनुजेन्द्राणां स्वयम्बरविधिज्ञमा । एका त्वेकाय दातव्या
 इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ३२ ॥ न च तां शक्यसे राजंल्लक्ष्मीं
 दातुं स्वयम्बरे । सदृशं वरमालोक्य दातुगर्हसि धर्मतः ॥ ३३ ॥
 अतर्थं वैनतेयोऽयं विघ्नकारुणहेतुना । आगतः कुण्डिनगरे देव-
 राजेन चोदितः ॥ ३४ ॥ अहं चैवागतो राज्ञा द्रष्टुकामो महो-
 त्सवम् । तां च कन्यां वरारोहां पद्मेन रहितां श्रियम् ॥ ३५ ॥
 क्षन्तव्यमिति यत्प्रोक्तं त्वया राजन्मयाग्रतः । युक्तिपूर्वमहं मन्ये-

में भीष्मककी स्त्रीके उदरसे उत्पन्न हो । २८ । २९ । हे राजन् !
 इसी लिये मैं तुमसे यह बात कहना हूँ वह भी इस बातको सुन
 कर जो उचित समझेगी उसको करेगी ॥ ३० ॥ हे राजन् !
 तुम्हारी रुक्मिणी नाम वाली कन्या साधारण मानुषी नहीं है यह
 लक्ष्मी है और किसी कारणवश मनुष्योंमें उत्पन्न होगई है ३१
 उसके लिये राजाओंका स्वयंवर करना उचित नहीं है, वह तो
 एक एकको ही देदनी चाहिये, यह उचित धर्म है ३२ तुम उस
 लक्ष्मीको स्वयंवरमें किसीको न देसकोगे, तुम्हें तो उसको उस
 के अनुरूप वर देख कर उसको देदना चाहिये ३३ इसी लिये
 देवराजके प्रेरणा करने पर यह गरुड़जी (स्वयंवरमें) विघ्न
 करनेके लिये कुण्डिन नगरमें आगए हैं ॥ ३४ ॥ और मैं भी
 राजाओंके महोत्सवको देखनेकी इच्छासे और पद्मरहित लक्ष्मीकी
 सपान इस वरारोहा कन्याको देखनेकी इच्छासे यहाँ आगया
 हूँ ॥ ३५ ॥ हे राजन् ! तुमने मेरे सापने जो बातें कही है, उस
 की युक्तिज्ञता करना चाहिये, क्योंकि-हे राजन् ! आपने जो
 बातें कहाँ ने चित्तमें दूरी रख कर नहीं कही है, किन्तु युक्ति

कलुषाय न पार्थिव ॥ ३६ ॥ पूर्वमेव मयाख्यातं येनास्मि विषये
 तव । आगतः सौम्यरूपेण तेनैव ज्ञान्तवान् विभो ॥ ३७ ॥
 ज्ञान्तेषु गुणबाहुल्यं दोषापहरणं ज्ञया । कथमस्मद्विधे राजन्
 कलुषो वसते हृदि ॥ ३८ ॥ कुलजे सत्त्वसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्य-
 वादिनि । भवादृशे कथं राजन् कलुषो भुवि वर्तते ॥ ३९ ॥
 ज्ञान्तोऽयमिति मन्तव्यं मम सेनासहायतम् । न चाहं सेनया सार्धं
 यास्यामि रिपुवाहिनीम् ॥ ४० ॥ अज्ञान्तश्चारिसेनायां यास्यामि
 द्विजबाहने । स्थितः सोमार्कसंकाशान्यापुथानिकरैर्वृतः ॥ ४१ ॥
 मान्योऽस्माकं त्वया राजन् वयसा च पिता समः । पालयस्व
 पुरीं सम्यक् क्षत्रेषु पितृवद्भस ॥ ४२ ॥ कलुषो नाम राजेन्द्र

कानेके लिये कही हैं ॥ ३६ ॥ हे विभो ! मैं तुम्हारे नगरमें सौम्य-
 रूपसे जिस कारणसे आया हूँ, यह सब मैंने तुमसे पहिले ही
 कह दिया, अब इसी प्रकार मैं तुम्हें ज्ञया कर देता हूँ ॥ ३७ ॥
 ज्ञान्त पुरुषोंमें बहुतसे गुण होते हैं और दोषोंके अपहरण करने
 का नाम ज्ञया है, हे राजन् ! फिर हम सभीखे पुरुषोंके हृदयमें
 कलुषता कैसे रह सकती है ३८ हे राजन् ! सत्कुलमें उत्पन्न हुए
 सत्त्वसंपन्न धर्मज्ञ और सत्यवादी आप सरीखे पुरुषोंके हृदयमें
 भी कलुषता कैसे रह सकती है ॥ ३९ ॥ मैं सेनाके साथमें आया
 हूँ, अतः मुझे ज्ञान्त समझना चाहिये, क्योंकि-मैं शत्रुओंकी
 सेनामें अपनी सेनाको लेकर नहीं घुसता हूँ ॥ ४० ॥ जिस समय
 मैं अज्ञान्त होता हूँ, उस समय मैं शत्रुसेनामें गरुड़ पर सवार
 हो जाया करता हूँ, उस समय मैं शत्रुसेना और सूर्यकी सगान प्रकाश
 फैलाने वाले आयुध मेरे पास होते हैं ॥ ४१ ॥ हम अपने पिता
 सत्कार करते हैं, और वे अस्थामें अपनी समान हैं, इसी लिये
 आप अपनी पुरीका भली-भाँति पालन करिये और क्षत्रियोंमें
 पिता बन कर रहिये ॥ ४२ ॥ हे राजेन्द्र ! कलुष तो कापुरुषोंमें

वसेत् कापुरुषेषु वै । शूरेषु शुद्धभावेषु कलुषो वसते कथम् ४३
 जानीध्वमेषा मे वृत्तिः पुत्रेषु पितृवद्वयम् । इमावपि च राजानो
 विदर्भनगराधिपौ ॥ ४४ ॥ आर्तिध्यकरणोऽस्माकं स्वराज्यं दत्त-
 चानुभौ । तेन दानफलेनास्य दशपूर्वा दिवं गताः ॥ ४५ ॥
 भविष्यांश्चैव राजानः पुत्रपौत्रा दशावराः । तेपि तत्रैव यास्यन्ति-
 देवलोकं नगाधिपाः ॥ ४६ ॥ अनयोः सुचिरं कालं भुक्त्वा
 राज्यमकण्ठकम् । यदाभिलापं मोक्षम्य यास्येते निर्वृतिं सुखम् ४७
 नरेन्द्राश्च महाभागा येऽभिषेचितुमागताः । कालेन तेपि यास्यन्ति
 देवलोकं त्रिचिष्टपम् ॥ ४८ ॥ स्वस्ति वोऽस्तु गदिष्यामि वैन-
 तेयसहायवान् । नगरौ मथुरां रम्यां भोजराजेन पालिताम् ४९
 वैशम्पायन उवाच । एवमुक्त्वा तु राजानं भीष्मकं यदुनन्दनः ।
 राक्षसैवसृषामन्त्र्य वैदर्भाभ्यां विशेषतः । सभान्निष्क्रम्य देवेशो
 रहता है, शुद्धभाव वाले शूर पुरुषोंमें कलुष कहींसे आया ४३
 इस प्रकार मैं निष्कलुष व्यवहार करता हूँ, इसको आप समझ
 लें, हम तो पुत्रोंसे पिताकी समान बर्ताव करते हैं और ये विदर्भ
 नगरके राजे भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं ४४ इन दोनोंने अतिधि-
 सत्कार करनेके लिये अपना राज्य भी हमारे अर्पण कर दिया है,
 इस दानके फलसे इनके दश पूर्वपुरुष स्वर्गमें पहुँच गए हैं ४५ और
 इनके वंशमें दश पीढ़ी तक इनके पुत्र पौत्र जो राजे होंगे वे भी
 स्वर्गमें जायेंगे ॥ ४६ ॥ यह दोनों बहुत समय तक अकण्ठक
 राज्य भोगनेके अनन्तर जब छूटना चाहेंगे तब इनकी मुक्ति हो
 जावेगी ॥ ४७ ॥ और जो महाभाग राजे मेरा अभिषेक करने
 आये थे, वे सब भी समय आने पर स्वर्गको जायेंगे ॥ ४८ ॥
 अब आपका कल्याण हो, मैं अस गरुड़को साथमें ले भोजराज
 से पालित रमणीय मथुरापुरीको जाता हूँ ४९ वैशम्पायनजीने
 कहा, कि-यदुनन्दन राजा भीष्मकसे इस प्रकार कह कर वह

जगाम रथमन्तिकम् ॥ ५० ॥ ततः प्रहृष्टो राजर्षिर्षीष्मकः किल-
 केशवम् । ते सर्वे च महीपाला विपणवदनाभवन् ५१ आद्यं
 स्वायंभुवं रूपं सुरासुरनमस्कृतम् । सहस्रगात् सहस्रार्त्तं सहस्र-
 भुजविग्रहम् ५२ सहस्रशिरसं देवं सहस्रमुकुटोज्ज्वलम् । दिव्या-
 मान्यावरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ५३ दिव्याभरणसंयुक्तं दिव्या-
 नैकोद्यतायुधम् । कृष्णं रक्तारविदातं चन्द्रसूर्पाग्निलोचनम् ५४
 दृष्ट्वा स राजा राजेन्द्रं प्रणिपत्य कृताञ्जलिः । बाह्मनःकाय-
 संयुक्तं स्तोतुमारब्धवास्तदा ॥ ५५ ॥ भीष्मक उवाच । देवदेव
 नमस्तुभ्यमनादिनिधनाय वै । शाश्वतायादिदेवाय नारायण-
 परायण ॥ ५६ ॥ स्वयंभुवे च विश्वाय स्थाणवे वेधसे हि च ।
 पद्मनाभाय जटिने दण्डिने जटिलाय च ॥ ५७ ॥ हंसप्रभाय

राजा और विशेषतः वैदर्भीके साथ सभासे निकल कर रथके
 पासको चले ५० उस समय सब राजाओंके मुख उदास होगए
 और राजा भीष्मकका मुख प्रसन्न होगया तब उन्हीने -आद्य
 स्वायंभुरूप देवता और असुरोंसे नमस्कृत सहस्र-चरणों वाले
 और अनन्त भुजाओंसे आवृत शरीर वाले अनन्त शिर वाले
 और अनन्त मुकुटोंसे उज्ज्वल दिव्य माला और अम्बर (वस्त्र)
 धारी और गंधको लगाने वाले दिव्य आभरणोंसे युक्त अनेक
 दिव्य आयुधोंको उठाने वाले रक्त कमलकी समान और सूर्य
 तथा अग्निकी समान नेत्रों वाले राजेन्द्र श्रीकृष्णको देख
 कर उनके चरणोंमें झुक कर दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम
 किया और बाणी मन तथा शरीरसे उनकी स्तुति करने
 लगा ॥ ५१-५५ ॥ भीष्मकने कहा; कि उत्पत्ति और मरण-
 रहित शाश्वत और आदिदेव देवदेव आपके लिये प्रणाम है,
 हे नारायणपरायण ! आपको प्रणाम है ॥ ५६ ॥ स्वयंभु विश्व-
 स्वरूप स्थाणु वेधा पद्मनाभ जटाधारी दण्डी जटिल हंसकी

हंसाय चक्ररूपाय वै नमः । वैकुण्ठाय नमस्तस्मै अजाय पर-
मात्मने ॥ ५८ ॥ सदसद्भावयुक्ताय पुराणपुरुषाय च । पुरुषो-
त्तमाय युक्ताय निर्गुणाय नमोऽस्तु ते ॥ ५९ ॥ वरदो भव मे
नित्य त्वद्भक्त्याय सुरोत्तम । लोकनाथोऽसि नाथस्त्वं विष्णुस्त्वं
विदितात्मनाम् ॥ ६० ॥ वैशम्पायन उवाच । एवं स्तुत्वा महा-
देवं नृपाणामग्रनो नृाः । महाहमणिमुक्ताभिर्वज्रैर्दूर्यहासिनम् १
शासकुम्भस्य निचयं कृष्णाय प्रददौ नृपः । पुनश्चक्रे नमस्कारं
चैततेये महाबले ॥ ६१ ॥ भीष्मक उवाच । नमस्तस्मै खगेन्द्राय
नमो मारुतरंहसे । कामरूपाय दिव्याय कारयपाय च नौ नमः
वैशम्पायन उवाच । इति संज्ञेयतः स्तुत्वा सत्कृत्य वरभूषणैः ।
ततो विसर्जयामास कृष्णं कमललोचनम् ॥ ६४ ॥ अनुजग्मु-

सपान ममा बाले हंसस्वरूप चक्र स्वरूप वैकुण्ठ और अजय
आप परमात्माके लिये प्रणाम है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ सत् और
असद्भावसे युक्त पुराणपुरुष पुरुषोत्तम और निर्गुणात्मक
आपको प्रणाम है ॥ ५९ ॥ हे सुरोत्तम ! मुझ अपने भक्तको
आप सदा वर देते रहिये, हे नाथ ! आप लोकोंके नाथ है और
आप विदितात्माओंके लिये विष्णु हैं ॥ ६० ॥ वैशम्पायनजीने
कहा, कि राजाने इस प्रकार राजाओंके सामने महादेवकी
स्तुति करके बहुमूल्या मणिमुक्ताओंसे वज्र (रत्न) और वैदूर्य-
मणिकी समान हंसने वाले सुवर्णका ढेर श्रीकृष्णके अर्पण
किया, तदनन्तर उसने महारत्नवान् गरुड़जीको नमस्कार किया
भीष्मकने कहा, कि-मन और वायुकी समान वेगवाले खगेन्द्रके
लिये प्रणाम है, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दिव्य
कश्यपपुत्रके लिये प्रणाम है ॥ ६१ ॥ वैशम्पायनजीने कहा,
कि-इस प्रकार भीष्मकने संज्ञेयसे स्तुति करके और श्रेष्ठ
आभूषणोंके कमलदललोचन श्रीकृष्णका अलंकृत करके भेज

नृपाश्चैव प्रस्थितं वासवानुजम् । प्रतिगृह्य च सत्कारं नृपाना-
 मन्व्य वीर्यवान् ॥ ६५ ॥ जगाम मथुरां कृष्णो द्योतयानो दिशो
 दश । वैनतेयं पुरस्कृत्य सौम्यरूपं तगोत्तमम् ॥ ६६ ॥ महता
 रथद्वन्द्वेन परिवार्य समन्ततः । भेरीपटहनादेन शंखदुन्दुभि-
 निःस्वनीः ॥ ६७ ॥ वृंहितेन च नागानां हयानां ह्योपतेन च ।
 सिंहनादेन शूराणां रथनेत्रिस्वनेन च ॥ ६८ ॥ तुमुलः सुगहा
 नामीन्महामैत्रवोपमः । गते कृष्णे महावीर्ये आदाय वरमासनम्
 सनामादाय देवाश्च प्रययुस्त्रिदशालेयम् । महता चतुरङ्गेण बलेन
 परिवारिताः ॥ ७० ॥ क्रोशमानमुपव्रज्य अनुज्ञाते जनार्दने ।
 प्रययुस्ते नृपाः सर्वे पुनरेव स्वयम्बरम् ॥ ७१ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिर्नाशे विष्णुपर्वणि कृष्णाभि-
 पेको नाम एकपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥

दिया ॥ ६४ ॥ उस समय जाते हुए श्रीकृष्णके पीछे राजे चले,
 तदनन्तर श्रीकृष्ण उस सत्कारको ग्रहण करके और राजाओंसे
 बात चीत करके दशों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए मथुराको
 चले, उस समय उनके आगे पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुड़ सौम्यरूपमें
 चले जा रहे थे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ उस समय उनके चारों ओर
 बहुतसे रथ चल रहे थे और भेरी पटह शह और दुन्दुगियें
 बज रही थी ॥ ६७ ॥ नाग (हाथी) बिघाड़ रहे थे घोड़े हिन
 हिना रहे थे, शूरवीर सिंहनाद कर रहे थे । ६८ । उस समय
 महामैत्रके गरजनेकी समान तुमुल शब्द होने लगा महावीर्यवान्
 श्रीकृष्णजीके चले जाने पर देवता सभा और श्रेष्ठ आसनको
 लेकर स्वर्गको चले गए, इधर सब राजे भी अपनी बड़ी भारी
 चतुरङ्गी सेनाको ले श्रीकृष्णके साथ र चल रहे थे एक-
 कोस आने पर श्रीकृष्णने उनको लौटनेकी आज्ञा दी, तब वे
 सब राजे स्वयम्बरमें लौट आये ॥ ६९-७१ ॥ ॥ ५१ ॥

वैशम्पायन उवाच । ततः प्रयाते वसुदेवपुत्रे नराधिपा भूषण-
 भूषितागाः । सभां समागम्य सुरेन्द्रकृपाः प्रबोधनार्थं गमनो-
 त्सनास्ते ॥ १ ॥ सभागतान् सोपरविपकाशान् सुखोपविष्टान्
 रुचिरासनेषु । समाक्ष्य राजा सुनयार्थवादी जगाद वाक्यं नर-
 राजसिंहः ॥ २ ॥ स्वयम्बरकृतं दोषं विदित्वा वो नराधिपाः ।
 क्षन्तव्यो मम वृद्धस्य दुर्दग्धस्य फलोदयम् ॥ ३ ॥ वैशम्पायन
 उवाच । एवमाभाष्य तान् सर्वान् सत्कृत्य च यथाविधि । ततो
 विसर्जयामास नृपांस्तान् मध्यदेशजान् ॥ ४ ॥ पूर्वपश्चिमजांश्चैव
 उत्तरापथिकानपि । तेषु सर्वे महेष्वासाः प्रहृष्टमनसो नराः । ५ ।
 यथाह्येण च सम्पूज्य जग्मुस्ते नरपुङ्गवाः । जरासन्धः सुनीयश्च

वैशम्पायनजीने कहकि-वसुदेवजीके पुत्रके प्रयाण करने
 पर भूषणोंसे भूषित अंग वाले और गमनमें उत्सव मनाने वाले
 इन्द्रकी समान राजे इस सब बातको कहनेके लिये भीष्मकी
 सभामें पहुँचे १ उस सभय नीतिशास्त्रकी बातें करने वाले नर-
 राजसिंह भीष्मकने सभामें रुचिर आसनों पर बैठे हुए सोच
 और मूर्खकी समान प्रकाशवान् राजाओंको देख कर भाषण
 दिया २ (स्वयंवरमें कृष्णविरोधनामक द्वेष विश्वका क्षय कर
 डालेगा यह समझ कर स्वयंवरके लिये बुलाये हुए राजाओंको
 भीष्मकने समझाते हुए कहा कि-) हे राजाओं ! स्वयंवरकृतदोष
 को विचार कर आप मुझ दुर्दग्ध पुरुषके फलोदयको क्षमा
 करिये ३ वैशम्पायनजीने कहा, कि—इस प्रकार उन सब
 राजाओंसे भाषण करके और उन सबका शास्त्रानुसार सरकार
 करके मध्यदेशके राजाओंको भेज दिया ४ और पूर्व और पश्चिम
 में उत्पन्न हुए राजाओंको उत्तरापथिकके राजाओंको भी विदा
 कर दिया, वे भी सब महाशुर्धर मनुष्य यथायोग्य (भीष्मककी)
 पूजा करके मनमें प्रसन्न होते हुए चले गए उस समय जरासन्ध-

दन्तवक्रश्च वीर्यवान् ॥ ६ ॥ शाल्वः सौभपतिश्चैव महाकूर्मश्च
 पार्थिवः । क्रथकैशिरुमुख्याश्च नृपाः प्रवरवंशजाः ॥ ७ ॥ वेणु-
 दारिश्च राजर्षिः काश्मीराधिपतिस्तथा । एते चान्ये च बहवो
 दक्षिणापथिका नृपाः ॥ ८ ॥ श्रोतुकामा रहो वाक्यं स्थिता वै
 भीष्मकान्तिके । तान वै ममीक्ष्य राजेन्द्रः स राजा भीष्मको
 बली ॥ ९ ॥ स्नेहपूर्णं मनसा स्थितांस्तानवनीश्वरान् । त्रिवर्ग-
 सहितं श्लक्ष्णं पद्गुणालंकृतं शुभम् ॥ १० ॥ उवाच नयसंपन्नं
 स्निग्धगम्भीरया गिरा । भीष्मक उवाच । भवतामवनीशानां
 समालोक्य नयान्वितम् ॥ ११ ॥ वचनं व्याहृतं श्रुत्वा कृतवान्
 कार्यपीडशम् । ज्ञान्तव्यं भवतां सद्भिर्व्यं नित्यापराधिनः ॥ १२ ॥
 वैशम्पायन उवाच । एवमुक्त्वा तु राजा स भीष्मको नय-
 कोनिदः । उवाच सुतमुद्दिश्य वचनं राजसंसदि ॥ १३ ॥ भीष्मक
 उवाच । पुत्रस्य चेष्टामालोक्य त्रासाकुलितलोचनः । मन्ये बाला-

सुनीय वीर्यवान्-दन्तवक्र सौभपति-शाल्व राजा-महाकूर्म क्रथ
 कैशिक ये श्रेष्ठ वंशोंमें उत्पन्न हुए राजे, राजर्षि वेणुदारि काश्मीर-
 राज ये यथा और भी बहुतसे दक्षिणापथके राजे एकान्तमें बातें
 सुननेके लिये भीष्मकजीके पास बैठे रहे, बलवान् राजा भीष्मक
 उन अवनीश्वरोंको देख कर स्नेहपूर्ण चित्तसे पद्गुणोंसे अलंकृत
 त्रिवर्ग (धर्म अर्थ और कामसहित) नयसंपन्न शुभ वचन स्निग्ध
 गंभीर वाणीमें कहने लगे, भीष्मकने कहा, कि-आप राजाओं
 के नीतियुक्त कृष्णस्तुतिरूप वचनको सुन कर मैं ऐसा कार्य
 कर रहा हूँ आप सज्जन हैं और हम सर्वदा अपराधी हैं, अतः
 आप हमें क्षमा करें ॥ ५-१२ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-फिर
 नीतिशास्त्रचतुर राजा भीष्मकने पुत्रको लक्ष्य कर राजसभामें
 भाषण दिया ॥ १३ ॥ भीष्मकने कहा, कि-पुत्रकी चेष्टाको देख
 मेरे नेत्र त्राससे व्याकुल हो रहे हैं, मैं इन सब राजाओंको बालक

निर्मांल्लोकान् स एष पुरुषः परः ॥ १४ ॥ कीर्तिं, [कीर्तिमतां
 श्रेष्ठो यशश्च यशभाग्बली । स्थापिता भुवि मर्त्येस्मिन् स्वत्राहु-
 बलमूर्जितम् ॥ १५ ॥ धन्या खलु महाभागा देवकी योपितां
 वरा । पुत्रं त्रिभुवनश्रेष्ठं कृत्वा गर्भेण केशवम् ॥ १६ ॥ कृष्णं
 कमलपत्राक्षं श्रीपुञ्जममराचितम् । नेत्राभ्यां स्नेहपूर्णाभ्यां वीक्षते
 मुखपंकजम् ॥ १७ ॥ वैशम्पायन उवाच । एवं लालप्यमानं
 तु राजानं राजसंसदि । उवाच श्लक्ष्णया वाचा शाल्वराजो महा-
 द्युतिः ॥ १८ ॥ शाल्व उवाच । अलं खेदेन राजेन्द्र सुनाय रिपु-
 मर्दिने । क्षत्रियस्य रणे राजन् ध्रुवं जयपराजयौ ॥ १९ ॥
 नियता गति मर्त्यानामेव धर्मः सनातनः । बलकेशवयोरन्य-
 स्तृतीयः कः पुमानिह ॥ २० ॥ रणे योभ्रयितुं शक्तस्तव पुत्रं

समभक्ता हूँ और भगवान् कृष्णको परम पुरुष समभक्ता हूँ १४
 वह कीर्तिमानोंमें श्रेष्ठ बलवान् यशस्वी श्रीकृष्ण अपनी कीर्तिको
 यशको और अपने बलवान् भुजबलको इस मृत्युलोकमें स्थापित
 करेगा ॥ १५ ॥ स्त्रियोंमें श्रेष्ठ देवकी अवरय ही बड़ी भाग्यवती
 है, क्योंकि-वह त्रिभुवनमें श्रेष्ठकृष्णको अपने गर्भमें धारण कर
 अब उन कमलपत्रकी सगान नेत्रों वाले लक्ष्मीके पुञ्ज देवताओं
 से अर्चित श्रीकृष्ण के मुखकमल को अपने स्नेहपूर्ण नेत्रोंसे देखा
 करती है ॥ १६-१७ ॥ वैशम्पायनजीने कहा. कि-उस समय
 महाकान्तिवान् शाल्वराजने राजसभामें इस प्रकार लल्लो चण्णो
 करते हुए राजासे कहा ॥ १८ ॥ शाल्वने कहा, कि-हे राजेन्द्र !
 तुम अपने शत्रुदमन पुत्रके कारण खेद क्यों करते हो, क्योंकि-
 हे राजन ! रणमें क्षत्रियकी हार जीत तो निश्चित है ॥ १९ ॥
 यह (मरना) तो मनुष्यकी नियत गति है और यह प्राचीन
 कालका धर्म है, तुम्हारे महाबली पुत्रसे बलराम और केशवके
 अतिरिक्त और तीसरा कौन पुरुष लड़ सकता है वह महाभुज

महाबलम् । रथातिरथवृन्दानामेक एव रणाजिरे ॥ २१ ॥ सिंपून्
 बाधयितुं शक्तो धनुर्द्युम्न महाभुनः । भार्गवास्त्रं महारौद्रं देवै-
 रपि दुरासदम् ॥ २२ ॥ सृजनो बाहुरीर्येण कः पुमान् प्रसहि-
 ष्यति । अयं तु पुरुषः कृष्णो ह्यनादिनिधनोऽजयः ॥ २३ ॥
 तं विजेता नृलोकेऽस्मिन्नापि शूलधरः स्वयम् । तव पुत्रो महा-
 राज सर्वशास्त्रार्धतत्त्ववित् ॥ २४ ॥ विदित्वा देवमीशानं न
 योधयति केशवम् । अद्य तस्य रणे जेता यवनाधिपतिर्नृप २५
 स कालपवनो नाम अवध्यः केशवस्य ह । तप्त्वा सुदारुणं घोरं
 तपः परमदुश्चरम् ॥ २६ ॥ रुद्रपाराधयामास द्वादशाब्दानयो-
 शनः । पुत्रकामेन मुनिना तोष्य रुद्रात् सृतं वृणोत् ॥ २७ ॥
 माधुराणामवध्योऽयं भवेदिति च शंकरात् । एवमस्त्विति रुद्रोपि
 मददौ मुनये सुतम् ॥ २८ ॥ एवं गार्ग्यस्य तनयः श्रोतान् रुद्र-
 धनुषधारण कर रणांगणमें अकेला ही रथी और अतिरथियोंके
 समूहको पीड़ित कर सकता है, जब वह देवताओंसे भी दुरासद
 महारौद्र भार्गवास्त्रको अपनी भुजाओंके वीर्यसे छोड़ेगा उस
 समय इसको कौन सहेगा, यह श्रीकृष्ण तो उत्पत्ति और मरण-
 रहित हैं और अच्युत हैं ॥ २०-२३ ॥ इस मनुष्यलोकमें सान्नात्
 शूलधारी शिव भी उनको नहीं जीत सकते, और हे राजन् !
 तुम्हारा पुत्र सकल शास्त्रोंके तत्त्वको जानने वाला है ॥ २४ ॥
 परन्तु वह इस समय कृष्णको ईशान देवस्वरूप जान कर युद्ध
 न करे हे राजन् ! परन्तु यवनाधिपति आज उसको रणमें
 जीतेगा ॥ २५ ॥ वह कालपवन केशवका भी अवध्य है, एक
 मुनिने पुत्रकी इच्छासे दारुण घोर परम तप करते हुए चारह वर्ष
 तक लोहेका भक्षण कर रुद्रकी आराधनाकी थी और रुद्रको
 प्रसन्न कर पुत्र माँगा था ॥ २६ ॥ २७ ॥ और उन्होंने रुद्रसे
 कहा था, कि-यह पुत्र मायुरोंका अवध्य हो तब रुद्रने भी एवमस्तु

वरोद्भवः । माथुराणामवधोऽयं मथुरायां विशेषतः ॥ २६ ॥
 कृष्णोऽपि बलवानेष माथुरे जानवानयम् । स जेष्यनि रणे
 कृष्णं मथुरायां समागतः ॥ ३० ॥ मन्यध्वं यदि वा युक्तां नृपा
 वाचं मयेरिताम् । तत्र दूतं विमृजध्वं यवनेन्द्रपुरं प्रति ॥ ३१ ॥
 वैशम्पायन उवाच । श्रुत्वा सौभपतेर्वाक्यं सर्वे ते नृपसत्तमाः ।
 कुर्म इत्यब्रुवन् हृष्टा जरासन्धं महाबलम् ॥ ३२ ॥ स तेषां वचनं
 श्रुत्वा जरासन्धो महीपतिः । बभूव विमना राजन् ब्रह्मणो
 वचनं स्मरन् ॥ ३३ ॥ जरासन्ध उवाच । मां समाश्रित्य पूर्व-
 सिमन्नुपा नृपभयादिनाः । प्राप्नुवन्तु हतं राज्यं सभृत्यवलवाह-
 नम् ॥ ३४ ॥ इहाहं चोद्यते भूपैः परसंश्रयहेतुना । कन्येव स्त-
 पतिद्वेषादन्यं रतिपरायणा ॥ ३५ ॥ अहो सुबलवद्दैवमशक्यं

कह कर मुनिको पुत्र दिया ॥ २८ ॥ इस प्रकार यह गार्ग्यपुत्र
 श्रीगान् कालगवन रुद्रके वरसे उत्पन्न हुए हैं, यह मथुरावासियों
 के लिये अबध्य हैं, और मथुरामें तो यह मारे ही नहीं जा
 सकते ॥ २९ ॥ यह कृष्ण भी मथुरामें उत्पन्न हुए हैं अत एव
 कालगवन मथुरामें आकर श्रीकृष्णको जीत लेंगे ॥ ३० ॥
 हे राजाओं ! यदि आप मेरी बातको युक्त (ठीक) समझते
 होओ तो यवनेन्द्रपुरको दूत भेजो ॥ ३१ ॥ वैशम्पायनजीने
 कहा, कि-वे सब राजे सौभपतिके वाक्यको मृन कर महाबली
 जरासन्धसे मसन्न होकर कहने लगे, कि-हम इस कार्यको
 करेंगे ॥ ३२ ॥ राजा जरासन्ध उनकी बातको मृन ब्रह्माजीके
 वचनका स्मरण कर अनमना होगया ॥ ३३ ॥ जरासन्धने
 कहा कि-हे राजन् और (कृष्ण)के भयसे डरे हुए राजाओं-
 पहिले तुम मेरा आश्रय लेकर अपने खांये हुए राज्यको भृत्य
 और वाहनोंसहित पालते थे ॥ ३४ ॥ अब जैसे रतिपरायण
 स्त्री अपने पतिसे द्वेष कर जारका आश्रय लेती है इसी प्रकार

विनिवर्तितुम् । यदहं कृष्णभीतोऽनं संश्रयामि बलाधिकम् ३६
 नूनं योगविहीनोहं कारयिष्ये पराश्रयम् । श्रेयो हि मरणं मह्यं
 न चान्यं संश्रये नृपाः ॥ ३७ ॥ कृष्णो वा बलदेवो वा यो वासौ
 वा नराधिपः । हन्तारं प्रतियोत्स्यामि यथा ब्रह्मणोदितः ३८
 एषा मे निश्चिता बुद्धिरेतत् सत्पुरुषव्रतम् । अतोऽप्यथा न शक्तोऽहं
 कर्तुं परसमाश्रयम् ॥ ३९ ॥ भवतां साधुवृत्तानामायाधं न करोति
 सः । तेन दूतं प्रदास्यामि नृपाणां रक्षणाय वै ॥ ४० ॥ व्योम-
 मार्गेण यातव्यं यथा कृष्णो न चाधते । गच्छन्तमनुचिन्त्यैव भेष-
 यभ्यं नृपोत्तमाः ॥ ४१ ॥ अयं सौभपतिः श्रीमाननलाकेन्दु-
 विक्रमः । रथेनादित्यवर्णेन प्रयाति स्वपुरं बली । ४२ ॥ यव-
 नेन्द्रो यथाऽभ्येति नरेन्द्राणां समागमम् । वचनं च तथाऽस्माभि-

राजे मुझे दूसरेका आश्रय लेनेको कह रहे है ॥ ३५ ॥ अहा !
 मारवाको लौटना अशक्य है, उसी कारण मैं कृष्णसे डरकर
 बलमें अधिक दूसरे राजाका आश्रय लेना चाहता हूँ ॥ ३६ ॥
 हाय ! मैं उपायरहित होकर दूसरेका आश्रय लूँगा ? इससे
 मेरा मर जाना अच्छा है, हे राजाओं ! मैं दूसरेका आश्रय नहीं
 लूँगा ३ ब्रह्माजीके वाक्यानुसार कृष्ण हो बलदेव हो अथवा और
 जो कोई मुझे मारेगा उस शत्रुके सामने मैं युद्ध करूँगा ३८ यह मेरा
 निश्चित विचार है, यही सत्पुरुषोंका व्रत है, इसके विपरीत दूसरेका
 आश्रय लेना मेरी शक्ति (प्रकृतिके) के विरुद्ध है ॥ ३९ ॥
 परन्तु आपसे सद्गुणी पुरुषोंको श्रीकृष्ण पीडा न देय इस
 लिये मैं राजाओंकी रक्षा करनेके लिये दूत देता हूँ ॥ ४० ॥
 हे राजाओं ! आकाशमार्गसे जानेपर कृष्ण उसको पीडा नहीं
 देंगे यह विचार कर दूत आकाशमार्गसे जायगा ॥ ४१ ॥ अग्नि
 और सूर्य तथा चन्द्रमाकी समान विक्रम वाले बलवान् सौभपति
 आदित्यवर्णके रथमें बैठकर अपने नगरको जाया करते हैं ४२

दूत्ये नः कृष्णविग्रहे ॥ ४३ ॥ वैशम्पायन उवाच । पुनरेवा-
 ब्रवीद्वाजा सौभस्य पतिमूर्जितम् । गच्छ सर्वेनरेन्द्राणां साहाय्यं
 कुरु मानद ॥ ४४ ॥ यक्षनेन्द्रो यथा याति यथा कृष्णं विजे-
 प्यति । यथा वयं च तुष्यामस्तथा नीतिर्विधीयताम् ॥ ४५ ॥
 एवं सन्दिश्य सर्वास्थान् भीष्मकं पूज्य धर्मतः । प्रगयौ स्वपुरं
 राजा स्वेन सैन्येन सम्भृतः ॥ ४६ ॥ शात्वोपि नृपतिश्रेष्ठस्ताभ्यां
 सम्पूज्य धर्मतः । जगामाकाशमार्गेण रथेनानिलरंहसा ॥ ४७ ॥
 तेषि सर्वे महीपाला दक्षिणापथवासिनः । अनुव्रज्य जरासन्धं
 गताः स्वनगरं प्रति ॥ ४८ ॥ भीष्मकः सह पुत्रेण तावुभौ
 चिन्त्य दुर्नयम् । स्वे गृहे न्यवसहीनः कृष्णमेवानुचिन्तयन् ४९

अब कृष्णके साथ हमारे विरोध होनेको और राजाओंके समा-
 गमको हमारे दूत बन कर यह कहें, और इस प्रकारसे बातचीत
 करें जिस प्रकार यक्षनेन्द्र यहाँ आजाय ॥ ४३ ॥ वैशम्पायनजी
 ने कहा, कि-तदनन्तर राजा जरासन्धने सौभनगरके बलबानु
 स्वामी शात्वसे कहा, कि-हे मानद ! आप जाइये और सकल
 राजाओंकी सहायता करिये ॥ ४४ ॥ यक्षनेन्द्र जिस प्रकार
 आजाय और जिस प्रकार कृष्णको जीत लेय और जिसप्रकार
 हम भी सन्तुष्ट हो जाय तैसी नीति चलना ॥ ४५ ॥ राजा जरा-
 सन्ध इस प्रकार सब राजाओंसे बात चीत कर और भीष्मक
 का धर्मानुसार सत्कार करके अपनी सेनाको साथमें ले अपने
 नगरको चला गया ॥ ४६ ॥ नृपतिश्रेष्ठ शात्व भी उनकी धर्म-
 पूर्वक पूजा करके पवनगामी रथमें बैठ आकाशमार्गसे चला ४७
 और दक्षिणापथमें रहने वाले वे सब राजे भी जरासन्धके पीछे
 जाकर अपने नगरको चले गए ॥ ४८ ॥ भीष्मक और उस
 का पुत्र उन दोनों क्रय कंशिकोंका और भीष्मक अपने पुत्रकी
 दुर्नीतिका भी विचार कर अपने घरमें सुखपूर्वक नहीं रह

विदिता रुक्मिणी साध्वी स्वयम्बरनिर्घर्तनम् । कृष्णस्यागमना
 द्वेतोर्नृपाणां दोषदर्शनम् ॥ ५० ॥ गत्वा तु सा सखीगण्ये
 उवाच व्रीडितानना । न चान्येषां नरेन्द्राणां पत्नी भवितु
 मुत्सहे । कृष्णात् कमलपत्रान्तत् सत्यमेतद्वचो मम ॥ ५१ ॥
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि रुक्मिणीस्वयं-
 चरो नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । ५२ ॥

वैशम्पायन उवाच । यवनानां बलोदग्रः स कालयवनो
 नृपः । बभूव राजा धर्मेण रक्षिता पुरवासिनाम् ॥ १ ॥ त्रिवर्ग-
 विदितः प्राज्ञः षड्गुणानुपजीवकः । सप्तव्यसनसम्मूढो गुणेष्व-
 भिरतः सदा ॥ २ ॥ श्रुतिमान् धर्मशीलश्च सत्यवादी जितेन्द्रियः ।
 सांग्रामिश्चविधिज्ञश्च दुर्गलाभानुसारणः ॥ ३ ॥ शूरोऽप्रतिबल-
 श्चैव मन्त्रिप्रवरसेवकः । सुखासीनः सर्वा रम्यां सचिवैः परि-

सका ४६ साध्वीरुक्मिणीने भी सुना कृष्णके आगमनके कारण
 स्वयंवर हट गया है और राजाओंमें भी गड़बड़ी पड़ गई है ५०
 उस समय उसने अपने लजिले मुखसे सखियोंके बीचमें कहा कि-
 में कमलपत्रान्त श्रीकृष्णके अतिरिक्त और राजाओंकी पत्नी
 बनना नहीं चाहती यह मेरा वचन सत्य है ५१ वाचनवाँ
 अध्याय समाप्त ५२

वैशम्पायनजीने कहा, कि-यवनोंमें बलवान् राजा कालयवन
 धर्मपूर्वक अपने पुरवासियोंकी रक्षा करता था १ वह धर्म अर्थ
 और काम मोक्षको जानने वाला था और छः गुणोंसे अपना
 आजीवन चलाता था, सात व्यसनोंसे मूढ़ (अनजान) रहता
 था और गुणोंसे सदा प्रेम करता रहता था २ श्रुति जानने वाला
 धर्मशील सत्यवादी जितेन्द्रिय था और संग्रामकी विधिको जानने
 वाला था, और जिस प्रकार दुर्ग मिले उस प्रकार अनुसरण
 (धावा) किया करता था ३ शूर था, उसके सामने किसीका

वारितः ॥ ४ ॥ उपास्यमानो यन्नैरात्मविद्भिर्विपश्चितैः । विवि-
धाश्च कथा दिव्याः कथ्यमानाः परस्परम् ॥ ५ ॥ एतस्मिन्नेव
काले तु दिव्यगन्धर्वोऽनिलः । मयवौ मदनावोर्धं चकार सुख-
शीतलः ॥ ६ ॥ किंस्विदित्येकगनसः सभायां ये ममागताः ।
उत्फुल्लनयनाः सर्वे राजा चैवानलोक्य सः ॥ ७ ॥ अपश्यन्त
रथ दिव्यमायान्त भास्करोपमम् । शातकुम्भमयैः शुभ्रै रथांगै-
रुपशोभितम् ॥ ८ ॥ दिव्यरत्नप्रभाकीर्णं दिव्य-वज्रपताकिनम् ।
बाहितं दिव्यतुरगैर्मनोमारुतरंहसैः ॥ ९ ॥ चन्द्रभास्करविम्बानि
कृत्वा जाम्बूनदेन तम् । रचितं वै विश्वकृता वैयाघ्रवरभूपितम्
रिपूर्णां त्रासजनन मित्राणां हर्षवर्धनम् । दक्षिणादिगुपायान्तं

चल काम नहीं देता था और श्रेष्ठ २ मंत्री उसकी मेवा किया
करते थे ऐसा राजा शान्च अपने मंत्रियोंसे घिरा हुआ सभामें
सुखपूर्वक बैठा था ४ उस समय आत्मवेत्ता विद्वन् यवन पर-
स्पर अनेक प्रकारकी दिव्य कथाएँ कह कर उसकी उपासना
कर रहे थे ५ इसी समय दिव्य सुगंध वाला पवन चलने लगा
और वह सुखशीतल वायु मदनको जगाता हुआ बहने लगा ६
तब तो सभामें आये हुए सज्जन एकचित्त होकर विचारने लगे,
कि-यह क्या है फिर राजा और सब सज्जनोंके नेत्र भी उस
को देख कर खिल उठे ७ उन्होंने देखा, कि-सूर्यकी समान
तेजस्वी दिव्य रथ आरहा है उसके रथांग सुवर्णसे मढ़े हुए होने
के कारण शोभा पारहे थे ८ वह दिव्य रत्नोंकी प्रभासे ब्या रहा
था और उसमें दिव्य ध्वजाएँ और पताकाएँ लग रहीं थीं और
उसको मन और वायुकी समान वेग वाले दिव्य घोड़े खेंच
रहे थे ९ विश्वकर्माने उसमें सुवर्णके चन्द्रमा और मूर्धके विम्ब
बना दिये थे और वह श्रेष्ठ वैयाघ्रवर्मसे विभूषित था १० वह
शत्रुओंके मनमें भय उत्पन्न करता था और मित्रोंके हर्षको

रथं पररथारुजम् ॥ ११ ॥ तत्रोपविष्टं श्रीमन्तं सौभस्य-पति-
मूर्जितम् । दृष्ट्वा परमसंहृष्टश्चार्घ्यं पाद्येति चासकृत् ॥ १२ ॥ उवाच
यवनेन्द्रस्य मन्त्री मन्त्रविदाम्बरः । तत्रोत्थाय महाबाहुः स्वयमेव
नृपासनात् ॥ १३ ॥ प्रत्युद्गम्यार्घ्यमादाय रथाचतरणे स्थितः ।
शाक्योपि च महातेजा दृष्ट्वा राजानमागतम् ॥ १४ ॥ मुदा पर-
मया युक्तं शक्रप्रतिपतेजसम् । अवतीर्णं सुविश्रब्ध एक एव रथो-
त्तमात् ॥ १५ ॥ विवेश परमं प्रीतो मित्रदर्शनलालसः । दृष्ट्वा-
र्घ्यमुद्यतं राजा शाक्यो राजर्षिसत्तमः ॥ १६ ॥ उवाच श्लक्ष्णया
वाचा नार्घाहोस्मि महाद्युते । दूतोहं मनुजेन्द्राणां सकाशाद्भवतो-
न्निकम् ॥ १७ ॥ प्रोपितो बहुभिः सार्धं जरासन्धेन धीमता । तेन
मन्ये महाराज नार्घाहोस्मीति राजसु ॥ १८ ॥ कालयवन उवाच ।

यदाता था दक्षिणदिशाकी औरसे आरहा या और वह रथ
शत्रुओंके रथोको तोड़ डालता था ॥ ११ ॥ मंत्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ
यवनेन्द्रके मंत्रीने उसमें श्रीमान् यलवान् सौभपतिको देख कर
बड़ा हर्ष प्रकट किया और बारंबार अर्घ्य और पाद्यके लिये
कहने लगा, उस समय महाभुज राजा स्वयं ही सिंहासन परसे
उठा ॥ १२ ॥ १३ ॥ और उठ कर अर्घ्य ले रथसे उतरनेके स्थान
पर आकर खड़ा होगया, तब तो महातेजस्वी शाक्य भी परम
प्रसन्न होते हुए और इन्द्रकी समान तेजस्वी राजाको देख कर
विश्वस्त होकर अपने श्रेष्ठ रथ परसे उतर पड़ा ॥ १४ ॥ १५ ॥
और मित्रके दर्शनकी लालसासे परम प्रसन्न होता हुआ उसके
पास गया, राजर्षिसत्तम शाक्यने अर्घ्यको तयार देख कर मधुर
वाणीमें कहा, कि-हे महाद्युते ! मैं अर्घ्यके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि-
मैं इस समय राजाओंका दूत हूँ, शुद्धिमान् जरासन्धने और
बहुतसे राजाओंने मुझे आपके पास भेजा है, इस लिये हे महा-
राज ! (इस समय) मैं राजाओंके बीचमें अपनेको अर्घ्यका पात्र

जानाम्यहं महाबाहो दौत्येन त्वामिहागतम् । साहित्ये नरदेवानां
 प्रेषितो मागधेन वै ॥ १६ ॥ तेन त्वामर्चये राजन् विशेषेण
 महामते । अर्घपाद्यादिसत्कारैरासनेन यथाविधि ॥ २० ॥ भव-
 त्यभ्यर्चिते राज्ञो सर्वेषामर्चितं भवेत् । आस्यतामासने शुभ्रे मया
 सार्धं जनेश्वर ॥ २१ ॥ वैशम्पायन उवाच । सहस्तालिंगनं
 कृत्वा पृष्ठा च कुशलामयम् । सुखोपविष्टौ सहितौ शुभे सिंहा-
 सने स्थितौ ॥ २२ ॥ कालयवन उवाच । यद्बाहुबलमाश्रित्य
 वयं सर्वे नराधिपाः । घसामो विगतोद्देगा देवा इव शचीपतंश्च
 किमसाध्यं भवेदस्य येनोसि प्रेषितो मयि । वद सत्यं वचस्तस्य
 किमाज्ञापयनि मभुः । करिष्ये वचनं तस्य अपि कर्म सुदुष्करम् २४

नहीं समझता ॥ १६-१८ ॥ कालयवनने कहा, कि-हे महाशुज !
 मैं जानता हूँ, कि-यहाँ आप दूत बन कर आये हैं और मागध
 राजने आपकी सहायता करनेके लिये यहाँ भेजा है ॥ १६ ॥
 हे महाशुद्धिमान् राजन् ! इस लिये मैं शास्त्रानुसार अर्घ्य पाद्य
 और आसन देकर आपकी और भी अधिक पूजा करूँगा २०
 क्योंकि आपकी पूजा करने पर सब राजाओंकी पूजा होजावेगी,
 इस लिये हे जनेश्वर ! आप मेरे साथ शुभ्र आसन पर विराज-
 मान हृजिये ॥ २१ ॥ वैशम्पायनजीने कहा कि-तब उन्होंने
 हाथ मिलाये और कुशलसमाचार बूझा फिर वे दोनों सुखपूर्वक
 शुभः सिंहासन पर बैठ गए ॥ २२ ॥ कालयवनने कहा, कि-
 जैसे देवना इन्द्रके भुजबलका आश्रय ले कर उद्देगरहित होकर
 निवास करते हैं, ऐसे ही हम सब राजे, भी जिनके भुजबलका
 आश्रय लेकर उद्देगरहित रहते हैं ॥ २३ ॥ उनके लिये क्या
 असाध्य होसकता है ऐसे राजाने आपको मेरे पास भेजा है, अब
 तुम : सत्य २ वच्य दो, हमारे मभुने क्या आज्ञा दी है, मैं उनकी
 आज्ञानुसार दुष्कर कार्य तो भी करूँगा ॥ २४ ॥ शान्वने कहा:

शाल्व उवाच । यथा वदति राजेन्द्र मगधोधिपतिस्तव । तथाऽहं
 संप्रवक्ष्यामि श्रुतेनायवनाधिप ॥ २५ ॥ जरासन्ध उवाच ।
 जातोऽयं जगतां बाधो कृष्णः परमदुर्जयः । विदित्वा तस्य
 दुष्टं तमहं हतुं समुद्यतः ॥ २६ ॥ पार्थिवैवर्हुभिः सार्धं समग्र-
 पलवाहनीः । उपरुध्य महासैन्यैर्गोमन्तमचलोत्तमम् ॥ २७ ॥ चेदि-
 राजस्य वचनं महार्थं श्रुत्वानहम् । यदा तयोर्विनाशाय हुता-
 शनमयोजयम् ॥ २८ ॥ ज्वालाशतसहस्राढ्यं युगान्ताग्निसम-
 ममम् । दृष्ट्वा रामो गिरिः कूटादाप्लुतो हेमतालधृक् ॥ २९ ॥
 विनिष्पत्य महासेनां मध्ये सागरसन्निभाम् । आजघान दुरा-
 धर्षो नराश्वरथदन्तिनाम् ॥ ३० ॥ सर्पन्तमिव सर्पेन्द्रं विकृष्णां-
 कृष्य लागलम् । नरनागाश्वट्टन्दानि मृशलेन व्यपोथयत् ॥ ३१ ॥

कि-हे राजेन्द्र ! मगधराजने तुमसे जो बात कही है, हे यवना-
 धिप ! उसको मैं कहता हूँ, आप सुनिये ॥ २५ ॥ जरासन्धने
 कहा है, कि-कृष्ण परमदुर्जय है और जगत्को पीड़ित कर रहा है
 उसके इस दुष्टको जान कर मैं उसे मारनेके लिये तयार होगया
 था ॥ २६ ॥ उस समय मैंने यहुँतसे राजाओंको साथ लिया
 उनके साथमें उनकी पूरी सेना और वाहन थे उस समय मैंने
 गोमन्त नामक श्रेष्ठ, पर्वतको बड़ी सेनाओंसे घेर लिया ॥ २७ ॥
 उस समय, चेदिराजके, तत्त्वमय वचनको सुन कर मैंने उनको
 विनष्ट करनेके लिये (पर्वतमें) अग्नि लागा दी ॥ २८ ॥ उस
 समय बलराम अग्निको सहस्रों ज्वालाओंसे प्रलयकालकी अग्नि
 की समान बढ़ता हुआ देख कर सुवर्णके तालको ग्रहण कर उस
 पर्वत परसे सागरकी समान बड़ीभारी सेनाके मध्यमें कूद पड़े,
 फिर वह दुराधर्ष राम सरकते हुए सर्पेन्द्रकी समान अपने लागल
 को उठा कर हाथी रथ और घोड़े तथा मनुष्योंको मारने लगे
 और मनुष्य हाथी और घोड़ोंकी धाँगीको मूसलसे कुचलने

गजेन गजमास्फाल्य रथेन रथयोधिनम् । हयेन च हयारोहं पदा-
 तेन पदातिनम् ॥ ३२ ॥ समरे स महातेजा नृपार्कशतसङ्कुले ।
 विचरन् विविधान् मार्गान्निदाये भास्करो यथा ॥ ३३ ॥ रामा-
 दनन्तरं कृष्णः प्रवृत्तार्कसमप्रभम् । चक्रं चक्रभृतां श्रेष्ठः सिंहः
 क्षुद्रमृगं यथा ॥ ३४ ॥ प्रविचाल्य महावीर्यः पादवेगेन तं गिरिम् ।
 शत्रुसेन्ये पपातोच्चैर्यदुवीरः प्रतापवान् ॥ ३५ ॥ प्रवृत्त्यन्निव
 शैलेन्द्रस्तोयधाराभिषोचतः । घूर्णमानो विवेशोर्वी विनिर्वाप्य
 हुताशनम् ॥ ३६ ॥ आदीप्यमानशिखरादिवप्लुत्य जनार्दनः ।
 जघान बाहिनीं राजंश्चक्रव्यग्रेण पाणिना । विक्षिप्य विपुलं
 चक्रं गदापातादनन्तरम् । नरनागाश्ववृन्दानि मुशलेन व्यचूर्ण-
 यत् ॥ ३७ ॥ क्रोधानिलसमुद्भूतचक्रलांगलवन्दिना । निर्दग्धा

लगे ॥ २९-३१ ॥ वह हाथीसे हाथीको मारने लगे और रथसे
 रथयोधाको मारने लगे, घोड़ेसे घोड़सवारको मारने लगे और
 पैदलसे पैदलको मारने लगे ॥ ३२ ॥ जैसे ग्रीष्म ऋतुमें सूर्य
 विचरण करते हैं तैसे ही वह सँकड़ों राजारूपी सूर्योसे व्याप्त
 समरमें अनेक प्रकारके पँतरे दिखाते हुए विचरण करने लगे ३३
 बलरामके अनन्तर चक्रधारियोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णने भी अपने सूर्यकी
 समान प्रभा वाले चक्रको उठा लिया फिर जैसे सिंह क्षुद्रमृगको
 दवाता है इसी प्रकार उन महावीर्यवान्ने अपने पादके वेगसे
 उस पर्वतकी कँपा डाला, तदनन्तर वे प्रतापी यदुवीर शत्रुसेना
 के बीचमें कूद पड़े ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ उस समय उस नाचते से
 हुए शैलेन्द्रने गलकी धाराओंसे स्नान किया और वह चकराता
 हुआ पर्वत अग्निको बुझा कर पृथ्वीमें (कुब्ज) घुस गया ३६
 जनार्दनने जलते हुए शिखरसे कूद कर दे राजन् ! अपने चक्रसे
 व्यग्र हाथमें सेनाका संहार किया ॥ ३७ ॥ फिर चक्रको फेंक
 गदा मारनेके अनन्तर हाथी मनुष्य और घोड़ोंके झुण्डोंको

महती सेना नरेन्द्रार्काभिपालिता ॥ ३६ ॥ नरनागाशकलिलं
 पत्तिभ्वजसमाकुलम् । रथानीकं पदाताभ्यां क्षणेन विदली कृतम्
 सेना प्रभग्नामालोक्य चक्रानलभयार्दिताम् । महता रथवन्देन
 परिवार्य सगन्तवः ॥ ४१ ॥ तत्राहं युद्धयमानस्तु भ्राताऽस्य बल-
 वान् बली । स्थितो ममाग्रतः शूरो गदापाणिर्हलापुत्रः ॥ ४२ ॥
 द्वादशान्तौहिणीर्हत्वा प्रभिन्न इव केसरी । हतं सौनन्दमुन्सृज्य
 गदया मामताडयत् ॥ ४३ ॥ वज्रगतनिर्भं वेगं पातयित्वा ममो-
 परि । भूयः महर्तुं कामो मां वैशाखेनास्थितो महीम् ॥ ४४ ॥
 वैशाखं स्थानमास्थाय गुहः क्रौंचं यथा पुरा । तथा मां दीर्घ-
 नेत्राभ्यामीक्षते निर्दहन्निव ॥ ४५ ॥ तादृकरूपं समालोक्य बल-

मूसलसे पीटने लगे ॥ ३८ ॥ राजारूपी सूर्योसे पालित वह बड़ी
 भारी सेना क्रोधरूपी वायुसे बड़ी हुई चक्रलांगलरूपी अग्निसे
 भस्म होगई ॥ ३६ ॥ उन दोनों पैदलोंने हाथी घोड़े और मनुष्यों
 से घचापच पौदल और ध्वजाओंसे छाया हुआ बड़ा भारी सेना-
 दल जरा देरमें साफ कर दिया ४० चक्रानलकी अग्निसे भयभीत
 होकर जब सेनामें भगी पड़ गई तब मैं बड़ीभारी रथसेनासे
 घिर कर युद्ध करने लगा उस समय इसका बड़ाभाई शूरवीर
 बलवान् हलापुत्र मेरे सामने हाथमें गदा लेकर खड़ा होगया ४१
 तदनन्तर उसने मदमत्त केसरीकी समान बारह अन्तौहियोंको
 मारकर सौनन्द नामक मूसलको छोड़दिया और मुझे गदासे
 पीटने लगा ॥ ४२ ॥ उसने वज्रगतकी समान वेगसे मुझ पर
 गदाका प्रहार किया, फिर वह उस कार्तिकेयकी गदासे मुझ
 पर दुबारा प्रहार करनेकी इच्छासे पृथ्वी पर खड़ा होगया ४४
 और जैसे गुह (स्वामि कार्तिकेय) ने क्रौंचके मर्मस्थान पर गदा
 मारना चाही थी इसी प्रकार वह आँखे फाड़ कर मुझे जलाता
 हुआसा देखने लगा ॥ ४५ ॥ रणाङ्गणमें बलदेवनीको इस

देवं रणाजिरे । जीवितार्थी वृत्तोलोकेऽस्मिन् कः पुमान् स्थातु-
मर्हति ॥४६॥ गृहीत्वा स गदा भीमा कालदण्डागवोधताम् ।
कुलाकुशेन निर्धृता स्मित एषाग्रतो मम ॥ ४७ ॥ ततो जलद-
गम्भीरस्वरंणापूरयन्नभः । वागुवाचाशरीरेण स्वयं लोकपिता-
महः ॥ ४८ ॥ महर्तव्यो न राजायमवध्योऽयं तवानघ । कल्पि-
तोऽस्य बभोऽन्यस्माद्विरमस्व हलायुध ॥ ४९ ॥ श्रुत्वाऽहं तेन
वाक्येन चिन्ताविष्टो निवर्तितः । सर्वप्राणहरं घोरं ब्रह्मणा स्वय-
मीरितम् ॥ ५० ॥ तेनाहं वः प्रवक्ष्यामि नृपाणां हितकाम्यया ।
श्रुत्वा त्वमेव राजेन्द्र कर्तुमर्हसि तद्ब्रह्मः ॥ ५१ ॥ तपसोग्रेण
महता पुत्रार्थी तोष्य शंकरम् । प्राप्तवान्नरदेव त्वामबध्वां माथुर-
जनैः ॥ ५२ ॥ महाभूनिश्चायसचूर्णमशनन्नुपस्थितो द्वादशवार्षिकं

प्रकार खड़ा देव कर मनुष्यलोकमें जीवने चाहने वाला कौन
पुरुष उनके सामने खड़ा रह सकता है ॥४६॥ तदनन्तर वह
कालदण्डकी समान गदाको पृथ्वीमें लीन होने वाले
हलेरूपी अकुशमे घृणा कर सामने खड़े ही रहे ॥ ४७ ॥ उस
समय स्वयं ब्रह्माजीने आकाशवाणीमें अपने मेघकी समान
गम्भीर स्वरसे आकाशको भरते हुए कहा, कि-४८ हे अनघ !
तुम इस राजा पर प्रहार न करना, क्योंकि-यह तुमसे अवध्य
है, इसका बध दूसरेसे रचदिया गया है, अतः हे हलायुध ! अब
तुम युद्ध करन् छोड़ दे ॥ ४९ ॥ उस वाक्यको सुन कर मुझे
बड़ी चिन्ता हुई और सब माणियोंका हरण करने वाले स्वयं
ब्रह्माजीके कहे हुए उस वाक्यको सुन कर मैं हट गया ॥५०॥
इसलिये मैं राजाओंका हित करनेकी इच्छासे कुछ कहता हूँ,
हे राजेन्द्र ! उस वाक्यको सुन कर आर उस बातको करे ५१
पुत्रार्थी भूनिने वही भारी तपसे शंकर भगवान्को मसन्न कर
माथुरासे अवध्य आपसे पुत्रको पाया है ॥ ५२ ॥ उन महा-

व्रतम् । सुरासुरैः संस्तुतपादपंकजः स लब्धवानीप्सितकाम-
सम्पदम् । ततो बलाद्गार्ग्यमुनेर्महात्मनो वरप्रभावाच्चकलेन्दु-
मौलिनः । भवन्तमासाद्य जनार्दनो हिमं विलीयते भास्कररश्मिना
यथा ॥५४॥ यतः स्वराज्ञां वचनमचोदितो व्रजस्व यात्रां विजे-
याय केशवम् । प्रविश्य राष्ट्रं मथुरां च सेनया निहत्य कृष्णं
प्रथयन् स्वकं यशः ॥ ५५ ॥ मथुरां वासुदेवञ्च बलदेवञ्च स-
वांधवम् । तौ विजेष्यसि संग्रामे गत्वा तां मथुरां पुरीम् ॥५६॥
शाब्ब इवाच । इत्येवं नरपतिभास्करप्रगीतं वाक्यन्ते कथितमिदं
हितं नृपाणांम् । सत्सर्वं सह सचिवैर्विमृश्य बुद्ध्या यद्युक्तं कुरु
मनुजेन्द्र चात्मनिष्ठम् ॥ ५७ ॥
इति श्रीमहाभारते हरिवंशो त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥

मुनिने लोहेका चूगन्वाकर चारह वर्षतक व्रत धारण किया था
तब जिनके घरणोंकी देवता और असुर भी पूजा करते हैं, उन
मुनिने अपने इष्ट वरको माया था ॥ ५३ ॥ गार्ग्यमुनिके तपके
प्रभावसे और कलासहित चन्द्रमाके धारण करने वाले शिवजी
के वरके प्रभावसे युक्त आपसे भेंटा होने पर श्रीकृष्ण ऐसे
विलीन होजावेंगे जैसे सूर्यके सामने वरफ गल जाता है, ५४
अपने राजाओंके वचनसे प्रेरित होकर आप केशवको, जीतनेके
लिये यात्रा करिये, मथुरामें और उसके राष्ट्रमें घुस कर कृष्ण
को मार कर अपने यशको फैलाइये ॥५५॥ आप मथुरापुरीमें
जाकर मथुरापुरीको श्रीकृष्णको और बलदेवको उनकी
सेनासहित जीतलेंगे ॥ ५६ ॥ शाब्बने कहा, कि-हे राजेन्द्र !
राजाओंके भास्करका कहा हुआ राजाओंका हितकारी यह वचन
तुमसे कह दिया है, मनुजेन्द्र ! इस बातका तुम अपने गन्त्रियोंसे
विचार करो और बुद्धिपूर्वक विचार करके जो उचित हो
उस कार्यको करो ॥ ५७ ॥ तरेपनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥

वैशम्पायन उवाच । एवं कथयमानं तं शाल्वराजं नृपा-
 ज्ञया । उवाच परमपीतो यवनाधिपतिर्नृपः ॥ १ ॥ कालयवन
 उवाच । धन्योऽस्म्यनुग्रहोतोऽस्मि सफलं जीवितं मम । कृष्ण-
 निग्रहहेतोर्यन्नियुक्तो बहुभिर्नृपैः ॥२॥ दुर्जयस्त्रिषु लोकेषु सुरा-
 सुरगणैरपि । तस्य निग्रहहेतोर्माभवधार्थं जयाशिषम् ॥ ३ ॥
 महर्षे राजसिंहैस्तेरवधार्यो जयो मम । तेषां वाचाम्बुवर्षेण विजयो
 मे भविष्यति ॥४॥ करिष्ये वचनं तेषां नृपसत्तमचोदितः । परा-
 जयोपि राजेन्द्र जयेन सदृशो मम ॥ ५ ॥ अद्यैव तिथिनक्षत्रं
 सुहृत् करणं शुभम् । यास्यामि मथुरां राजन् विजेतुं केशवं रणे
 वैशम्पायन उवाच । एवमाभाष्य राजानं सांभस्य पतिमूर्जि-
 तम् । सत्कृत्य च यथान्यायं महार्हमणिभूषणैः ॥७॥ ब्राह्मणेभ्यो

वैशम्पायनजीने कहा, कि-राजाज्ञासे शाल्व इस प्रकार कह
 रहा या उससे यवनोंके राजाने परम प्रसन्न होकर यह बात
 कही, १ कालयवनने कहा, कि-बहुतसे राजाओंने मुझे कृष्णका
 निग्रह करनेके लिये नियुक्त किया है, इस लिये मैं धन्य हूँ और
 मेरा जीवन सफल होगया है २ जिस पुरुषको तीनों लोकोंके
 देवना तथा असुर भी कठिनतासे जीत सकते हैं उसका निग्रह
 करनेके लिये मुझे हेतु मान कर मुझे जयके-आशीर्वादमय वचनों
 से बदाना चाहिये ३ सन राजसिंह प्रसन्न होकर मेरी जय
 मनाये, उनकी वाणीरूप जल-वर्षामे मेरी विजय होजायगी ४
 मैं इन नृपसत्तमोंके वचनोंसे प्रेरित होकर इनके वचनको करूँगा
 हे राजेन्द्र ! इस समय मेरा पराजय भी विजयकी ही समान है ५
 आजकी तिथि नक्षत्र और करण परम शुभ है, अतः हे राजन् !
 मैं आज ही श्रीकृष्णको रणमें जीतनेके लिये मथुरापुरीको
 जाऊँगा ६ वैशम्पायनजीने कहा, कि-राजा कालयवनने सांभ-
 देशके चलवान् स्वामीसे इस प्रकार संभाषण करके बहुमूल्य मणि

ददौ वित्तं सिद्धादेशागंभी नृपः । पुरोहिताय राजेन्द्र गददौ
 बहुशो धनम् = ह्युत्वाग्निं त्रिभिवद्राजा कृतकौतुकमङ्गलः । प्रस्थानं
 कृतवान् सम्पदजेतुकामो जनार्दनम् ॥ ६ ॥ शाल्वोऽपि भरतश्रेष्ठ
 कृतार्थो हृष्टमानसः । यवनेन्द्रं परिचय्य जगाम स्वपुरं नृपः १०
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि कालवधनवाक्यं
 । नाम चतुर्ष्वेणित्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥

। जनमेजय उवाच ॥ १ ॥ विदर्भनगरायाः शक्रतुल्यपराक्रमे ।
 किमर्थं गरुडो नीतः किं च तमं नकार सः ॥ १ ॥ न चारुह
 भगवान् वैनतेय महाबलम् । एतन्मे संशयं ब्रह्मन् ब्रूहि तत्रं
 महासुने ॥ २ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ शृणु राजन् सुपर्णेन कृतं
 कर्मातिमानुपम् । विदर्भनगरीं गत्वा वैनतेयो महाद्युतिः ॥ ३ ॥

आदिसे विसंज्ञा सन्काचित्तिज्ञा हे राजेन्द्र ॥ तदनन्तर उक्तं राजाने
 ब्राह्मणोंको धन दिया और अद्वितया (सत्य) आशीर्वाद देने
 वाले पुरोहितको भी बहुसा धन दिया ॥ ७-८ ॥ तदनन्तर
 अग्निमें होम करके और मंगलपत्र, पुकारोंको करके राजाने
 श्रीकृष्णको जीतनेकी इच्छासे मयाण किया ॥ ६ ॥ हे भरत-
 श्रेष्ठ ! तव राजा शाल्व भी यवनेन्द्रसे आलिप्त कर कृतार्थ होने
 से अपने मामोंप्रसन्न होता हुआ अपने नगरको चला गया १०
 चौबनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५४ ॥

। जनमेजयने कहा, कि शरद्वी स्थान पराधी श्रीकृष्णकी
 गधुरापुरीसे बुलें गए, परन्तु उहोंने गरुडको किस लिये बुलाया
 था और गरुडने क्या कर्म किया था ॥ १ ॥ भगवान् तो महा-
 बली गरुड पर सवार भी नहीं हुए थे, हे महासुने ! इस बातका
 सुभे वदो सन्देह है, अतः आप इसका मात्र वता दीजिये ।
 वैशम्पायनजीने कहा, कि-हे राजन् ! सुनिये ! सुपर्ण (गर्गड़) ने
 अति आमानुषी कर्म किया था, पराकारिणान् सुपर्ण विदर्भनगरी

असंभाप्ते च नगरीं मथुरां मधुसूदने । मनसा चिन्तयामास वैन-
तेयो महाद्युतिः ॥ ४ ॥ यदुक्तं देवदेवेन नृपाणामग्रतोऽधुना-
यास्यामि मथुरां रम्यां भोजराजेन पालिताम् ॥ ५ ॥ इति तद्वच-
नस्यान्ते गमिष्येति विचिन्तयन् । कृताञ्जलिपुटः श्रीमान् प्रणि-
पत्याब्रवीदिदम्- ॥ ६ ॥ गरुड उवाच । देव यास्यामि नगरीं
रैवतस्य कुशस्थलीम् । रैवतं च गिरिं रम्यं नन्दनप्रतिमं वनम् ७
रुक्मिण्योद्वासितां- रम्यां शैलोदधितटाश्रयाम् । वृक्षगुल्मलता-
कीर्णां पुष्परेणुविभूषिताम् ॥ ८ ॥ गजेन्द्रभुजगाकीर्णां ऋत्न
यानरसेविताम् । वराहमहिपाक्रान्तां मृगयूथैरनेकशः ॥ ९ ॥ तां
समन्तात् समालोक्य वासार्थं ते क्षमाक्षमम् । यदि स्याद्भवतो
रम्या प्रशस्ता नगरीति च । कण्ठकोद्धरणं कृत्वा आगमिष्ये

में चले गए थे ॥ ३ ॥ जब तक श्रीकृष्ण मथुरापुरीको न गए
थे उससे पहिले ही महाकान्तिवान् गरुडने अपने मनमें विचारा,
कि-॥ ४ ॥ देवदेवने इस समय राजाओंके सामने कहा है कि-
मैं भोजराजसे पालित मथुरापुरीको जाऊंगा ॥ ५ ॥ अब इस
बातचीतके अन्तमें यह चले ही जावेंगे, यह विचार कर श्रीमान्
गरुड हाथ जोड़ मणाय करके यह कहने लगे ॥ ६ ॥ गरुडने
कहा, कि-हे देव ! मैं रैवतपर्वतकी कुशस्थली नामकी नगरीको
रैवतपर्वतकी और नन्दनवनकी समान रमणीय रैवतवनको जाता
हूँ ७ वस नगरीमें रुक्मिणी रहना छोड़ दिया है वह रमणीय पुरी
पर्वत और समुद्रके तट पर है, तहाँ पर अब बहुतसे वृक्ष गुल्म और
लता हो गई हैं और वह पुष्पोंकी पिरागोंसे विभूषित है ॥ ८ ॥
अब तहाँ बहुतसे मृगर भैंसे और मृगोंके झुण्ड विचरते रहते
हैं ९ मैं आपका निवासस्थान बनानेके लिये चारों ओर देखूंगा
आप मेरे अपराधकी क्षमा करिये, यदि वह नगरी आपके लिये
रमणीय और प्रशस्त होगी तो मैं वहाँके काँटे आदिको उखाड़

तवोन्तिकम् ॥ १० ॥ वैशम्पायन उवाच । एवं विज्ञाप्य देवेशं
 प्रणिपत्य जनार्दनम् । जगाम पतमेन्द्रोपि पश्चिमाभिमुखो बली
 कृष्णोपि यदुभिः सार्धं विवेश मथुरां पुरीम् । स्त्रीरिण्यं उग्र-
 सेनश्च नागराञ्चैव सर्वशः । मत्पुत्रम्यार्चयन् कृष्णं प्रहृष्टजनसंकु-
 लम् ॥ १२ ॥ जनमेजय उवाच । श्रुत्वाऽपिपित्तं राजेन्द्रं बहुभि-
 र्वसुधाधिपैः । किं चकार महाबाहुस्त्रसेनो महीपतिः ॥ १३ ॥
 वैशम्पायन उवाच ॥ श्रुत्वापिपित्तं राजेन्द्रं बहुभिः पार्थिवो-
 त्तमैः । इन्द्रेण कृतसन्धानं दूतं चित्रांगदं कृतम् ॥ १४ ॥ एकैकं
 नृपतेर्भागं शतसाहस्रसम्मितम् । राजेन्द्रे त्वर्जुदं दत्तं मानवेषु च
 नो दश ॥ १५ ॥ ये तत्र समनुमाप्ता न रिक्तास्ते गृहं गताः ।

कर आपके पास आजाऊँगा १० वैशम्पायनजीने कहा, कि-
 इस प्रकार देवेश, जनार्दनको जना कर और उनको प्रणाम
 कर चलवान् पश्चिमकी ओर मुख करके चल दिये ११
 इधर श्रीकृष्णभी यादवोंको साथ ले मथुरापुरीमें चुसे उस समय
 नर्तकी, सब नगरके मनुष्य और उग्रसेन श्रीकृष्णकी अगवानी
 करने आये और उनकी पूजा की, उस समय तहाँ मनुष्य मसन्न
 (दीखते) थे १२ जनमेजयने कहा, कि-महाभुज राजा उग्रसेन
 ने जब यह सुना कि-बहुतसे राजाओंने श्रीकृष्णका राजेन्द्रपद
 पर अभिषेक कर दिया है, तब उन्होंने क्या किया था १३
 वैशम्पायनजीने कहा, कि-इन्द्रेने चित्रांगदको दूत बना श्रीकृष्ण
 की राजाओंसे संधि करवा दी है और बहुतसे राजाओंने श्रीकृष्ण
 का राजेन्द्रपद पर अभिषेक कर दिया है” यह सुन कर १४
 (उग्रसेनने) प्रत्येक (माण्डलिक) नृपतिको एक २ लाखका
 द्रव्य दिया था और राजेन्द्र अर्थात् माण्डलिकेशको अर्जुद २ धन
 दिया था और प्रत्येक मनुष्यको भी दश २ सहस्र दिया था १५
 तहाँ पर जो मनुष्य आये थे वे खाली हाथ घरको नहीं गए थे,

शंभो यादव्रूपेण प्रददा हरिचिन्तितम् ॥ '१६' ॥ एवं निधि-
पतिः श्रीमान् दैवतैरनुमोदितः । इति श्रुत्वात्मिकजनान् लोक-
प्रावृत्तिकान्नरात् ॥ १७ ॥ चकार महतीं पूजां देवतायतनेष्वपि ।
वसुदेवस्य भवने तोरणोभयपार्श्वतः ॥ १८ ॥ नटानां नृत्यगे-
यानि चाद्यानि च समन्ततः । पताकाव्यजमालाढ्यां कारयामास
वै चतुः ॥ १९ ॥ कंसराजस्य च सभां विचित्राम्बरसुप्रभाम् ।
पताकाविविधाकारा दार्पणामाम भोजराट् ॥ २० ॥ तोरणं गोपुरं
चैव सुभाषंकानुलेपनम् । चारयापास राजेन्द्रो राजेन्द्रस्यासना-
लयम् ॥ २१ ॥ नटानां नृत्यगेयानि चाद्यानि च समन्ततः ।
पताकावनमालाढ्याः पूर्णकुम्भाः समन्ततः ॥ २२ ॥ राजमार्गेषु
राजेन्द्र चन्दनोदकमेचिनम् । वस्त्राभरणकैः राजा दापयामास

उस समय शंखनिधि यादवका रूप धारण कर श्रीकृष्णके विचारे
हुए धनको देरही थी १६ संभारकी खबर देने वाले अपने निजी
मनुष्यसे सुन कर देवनाश्रमने श्रीमान् निधिपतिको यह आज्ञा
दी थी - १७ (उग्रसेनने) देवालयोंमें बड़ी भारी पूजा कराई
और वसुदेवके भवनमें दोनों ओर तोरण लगना दिये ८ चारों
ओर नटोंके नाच गान केशवाये, और राजा उग्रसेनने कंसराज
की सभाको पताका ध्वजा माला और चस्त्रोंसे सजा कर उसकी
छविको मनोहरे चना दियो, और तहाँ तोरण और गोपुर
(गवाक्षी) पर सुभाषंक लीगा हुआ था, उनमें भी भोजराजने
अनेक प्रकारकी ध्वजाएँ लगीं, कंबी थीं, इस प्रकार राजेन्द्र उग्र-
सेनने राजेन्द्र (श्रीकृष्ण) का आसनालय सजवाया था १८-२१
तहाँ पर स्थान २१ नटोंके नृत्य और गाने होने लगे, बाजे
बजने लगे, सब ओर भवनमाला और ध्वजाओंसे सुशोभित बड़े
रख दिये गए ॥ २२ ॥ और हे राजेन्द्र ! राजमार्गोंमें चन्दनसे
मिला हुआ जल छिड़का गया और राजा उग्रसेनने भूखलमें

भूतले ॥ २३ ॥ धूपं पार्श्वोपये चैव चन्दनागुरुगुलैः । गुडं
 सर्जरसं, चैव दक्षमानं ततस्ततः ॥ २४ ॥ वृद्धस्त्रीजनसंगेऽथ गायत्रिः
 स्तुतिमंगलम् । अर्घ्यं कृत्वा प्रतीक्षन्ते स्वेषु स्थानेषु योषितः २५
 एवं कृत्वा पुगानन्दमुग्रसेनो नराधिपः । वसुदेवगृहं गत्वा मिया-
 ख्यानं निवेद्य च ॥ २६ ॥ रामेण सह सम्गम्य निर्गतो रथ-
 मन्तिकरम् । तस्मिन्नेवान्तरे राजञ्छंखध्वनिरभून्महान् ॥ २७ ॥
 पांचजन्यस्य, निनदं श्रुत्वा-मधुरवासिनः । स्त्रियो, वृद्धाश्च बालाश्च
 सूनवगर्भवन्दिनः ॥ २८ ॥ ध्वनिर्यधुर्महासेना रामं, कृत्वाऽग्रतो
 नृपः, अर्घ्यं प्राद्यं पुत्रस्कृत्य, उग्रसेनेन धीमता ॥ २९ ॥ दृष्टिमन्धा-
 नमासाद्य उग्रसेनो महीपतिः । अवतीर्य, रथाच्छुभ्रात्, पादमार्गेण
 चाग्रतः ॥ ३० ॥ दृष्ट्वाऽऽसीनं, रथे, रम्ये, दिव्यरत्नविभूषितम् ।

वस्त्र और आभरण-विद्यवा-दिये ॥ २३ ॥ चन्दन-अगुरु और
 गुग्गुली-धूप दोनों और करवा दी और स्थान २ पर गुड और
 राल गुलगवा दी ॥ २४ ॥ उस समय स्त्रियें, स्तुतिमंगल गाती
 हुई वृद्धा-स्त्रियोंके ; सुएडोंको आगे करके- अर्घ्य लेकर, अपने
 स्थानमें खड़ी हुई प्रतीक्षा कर रही थीं ॥ २५ ॥ राजा उग्रसेन
 इस प्रकार, अपने नगरको आनन्दिनी केरुके वसुदेवजीके, घर गए
 और उनसे- (यह,) प्रिय, बालिकाही, ॥ २६ ॥ फिर बलरामजी
 से मंत्रणा- करके ब्रह्मरथके पास चले, हे राजन् ! इसी समय
 बड़ी भारी शंखध्वनि होने ; लगी ॥ २७ ॥ बड़ी भारी सेना
 तथा बलरामको आगेकर- मथुरावासी, स्त्री बालक वृद्ध सूत
 मागध और वन्दी, पाञ्चजन्य शंखके शब्दको सुनकर निकल
 पड़े, और बुद्धिमान् उग्रसेन भी, अर्घ्य-और पाद्यको लेकर
 चले ॥ २८ ॥ २९ ॥ राजा उग्रसेन- दृष्टिमार्गमें आकर अपने
 शुभ्र, रथमेंसे उतर पड़े और पैदल हो आगे चले ॥ ३० ॥ हे
 राजेन्द्र ! उस समय, राजा उग्रसेनने कठिनतासे दीखने योग्य

यथा नृपाणां सर्वेषां तथा ते स्थापितोऽग्रतः ॥ ४५ ॥ शतसाह-
 स्रिको भागो वस्त्राभरणवर्जितः । आरुहस्व तथः शुभ्रः चामी-
 करविभूषितम् ॥ ४६ ॥ चामरं व्यंजनं छत्रं ध्वजञ्च मनुजेश्वरं ।
 दिव्याभरणसंयुक्तं मुकुटं भास्करभगम् ॥ ४७ ॥ धारयस्व महाभागं
 पालयस्व पुरीणिमाम् ॥ सुत्रपौत्रैः प्रमुदितो मथुरां परिपालय ४८
 जिन्वाऽस्मिणसंप्राथम्ये भोजवशां त्रिवर्ष्यम् । देवदेवाद्यनन्ताय
 शौरिणे व्रजपाणिना ॥ ४९ ॥ प्रपितं देवराजेन दिव्याभरण-
 म्भ्रमं । माथुरीणां च सर्वेषां भागो दीनारकां दश ॥ ५० ॥
 सूतपौत्रं च वन्दीनामिकैकस्य सहस्रिकम् । वृद्धस्त्रीजनसंघानां गणि-
 कानां शतं शतम् ॥ ५१ ॥ नृपेण सह तिष्ठन्ति विकटुपमुखारच-
 मयुधैः राजांश्चैतः अपि विपरीतवर्तित्वं करिये ॥ ४४ ॥
 हे नृपते ! मैं आपको स्थानभागरूपदक्षिणा अर्थात् सुदुराजाके
 देने योग्य राज्यधनांश भी देगा, सब राजाओंकी समान भी
 उसे आपके पास उपस्थित करूँगा ॥ ४५ ॥ वस्त्र और आपूषणों
 से अलग एक लतावकाञ्चनमयभाग आपके लिये मैंने रख दिया
 है, अथ आप स्वामी कर से विभूषित अपने शुभारथपर सवार
 हूँजिये, हे मनुजेश्वर ! आपका चामर व्यंजनी छत्र और सूर्यकी
 समान प्रभावानुदिव्य आभरणोंसे युक्त युक्तं मुकुटको आरण्य
 करिये, हे महाभाग ! अथ आप इस पुरीको पालन करिये और
 पुत्र तथा पौत्रोंके साथी प्रमुदित होते हुए मथुराको पालन
 करिये ॥ ४७ ॥ नाशेना शत्रुसमूहको जीत कर भोजवशांकी वृद्धि
 करिये; वज्रपाणि इन्द्रने शूरके वंशज देवदेव अनन्तके लिये दिव्य
 आभरणरूप वस्त्राभरण है; सब माथुरीका दीनार (एक
 दीनार सुवर्णके सहस्र सिकोंका होता है) का भाग सूत-भागध
 और वृन्दिगोंसे एक एक का सहस्र २०का भाग वृद्ध और
 स्त्रियोंका सौ सौका भाग और जो राजाके समीप रहते हैं उन

ये । दशसाहस्रिको भागस्तेषां धाना प्रकल्पितः ॥ ५२ ॥ वैशंपायन उवाच । एवं संपूज्य राजानं माथुराणां चमूमुखे । कृत्वा सुमहदानंदां मथुरां मधुसूदनः ५३ दिव्याभरणामन्यैश्च दिव्यांबरविलेपनैः । दीप्यमानः समन्ताच्च देवा इव त्रिविष्टपे ॥ ५४ ॥ भेरीपटहनादेन शंखदुन्दुभिनिःस्वनैः । बृंहितेन च नागानां हयानां हेषितेन च ॥ ५५ ॥ सिंहनादेन शूराणां रथनेमिस्वनेन च । तुमुलः सुमहानासीन्मेघनाद इयाम्बरे ॥ ५६ ॥ वन्दिभिः स्तूयमानं च नमश्क्रुरपि प्रजाः । दत्त्वा दानगनन्तं च न यथा विस्मयं हरिः ॥ ५७ ॥ स्वभावोन्नतभारत्वाद् दृष्टपूर्वात्ततोधिकम् । अनहंकारभावाच्च निस्मयं न जगाम ह ॥ ५८ ॥ दीप्यमानं

विकट्टु आदिका दश २ सहस्रका भाग इन्द्रने बना दिया है ५२-५३ वैशम्पायनजीने कहा, कि-मधुसूदनने माथुरांभी सेनाके मुहाने पर इस प्रकार राजा उग्रसेनकी पूजा करके मथुराको आनन्दगयी बना कर मथुरामें प्रवेश किया ॥ ५३ ॥ जैसे देवता स्वर्गमें शोभा पाते है, इसी प्रकार दिव्य आभरण मान्य और दिव्य वस्त्र विलेपनोंसे श्रीकृष्ण शोभा पा रहे थे ॥ ५४ ॥ जैसे आकाशमें बादल गड़गड़ाता है, तैसे ही भेरी और पटहके नादसे और शंख तथा दुन्दुभिके नादसे हाथियोंके चिंघाड़नेसे और घोड़ोंके हींसनेसे शूस्वीरोंके सिंहनादसे और रथकी नेमिके शब्दसे आकाशमें बड़ा भारी नाद होने लगा ५५-५६। जिस समय बन्दी श्रीकृष्णकी पूजा कर रहे थे उस समय प्रजाओंने उन्हें प्रणाम किया, श्रीकृष्ण अनन्त दान देकर भी विस्मित न हुए ५७ उनका स्वभाव उच्च था और यह सब बात उन्होंने पहिले ही (योगदृष्टिसे) देख ली थी और इससे भी अधिक उनमें अनहंकार भाव था इस लिये उन्होंने विस्मय नहीं किया ॥ ५८ ॥ अपने शरीरसे मदीप्त सूर्यकी समान गभा वाले श्रीकृष्णको मथुरा

स्ववपुषा आचान्तं भास्करप्रभम् । दृष्ट्वा मथुरवासिन्यो नमश्चक्रुः
 पदे पदे ॥५६॥ एष नारायणश्श्रीमान्नीरार्णवनिकेतनः । नाग-
 पर्यकमुत्सृज्य प्राप्तोऽयं मथुरां पुरीम् ॥ ६० ॥ बध्वा बलिं
 महावीर्यं दुर्जयं त्रिदशैरपि । शक्राय प्रददौ राज्यं त्रैलोक्यं वज्र
 पाणये ॥६१॥ हत्वा दैत्यगणान् सर्वान् कसं च बलिनाम्बरम् ।
 भोजराजाय मथुरां दत्त्वा केशिनिपूदनः ॥ ६२ ॥ नाभिपित्तः
 म्भयं राज्ञे न चासीनो नृपासने । राजेन्द्रत्वं च सम्पाप्य मथुरा-
 माविशत् नतः ॥ ६३ ॥ एवमन्योन्यसंजल्पं श्रुत्वा पुरनिवासि-
 नाम् । वन्दिमागधमूतानामिदमूर्चुर्गणाधिपाः ॥ ६४ ॥ किं वा
 शक्यामहे वक्तुं गुणानां ते गुणोदये । मानुषेणैकजिह्वेन प्रभावो-
 त्साहसम्भयान् ॥ ६५ ॥ सहस्रभोगी नागेन्द्रः कदाचिद् देव
 बुद्धिपान् । द्विसाहस्रेण जिह्वेन वासुकिः कथयिष्यति ॥ ६६ ॥

मैं आते देख कर मथुरावासिनियोंने उन्हें पद २ में गणाय किया ५६
 (उन्होंने अपने मनमें कहा, कि—) यह नीर समुद्रमें रहने वाले
 साक्षात् श्रीमान् नारायण अपनी नागशय्याको छोड़ कर मथुरा
 पुरीमें आगए हैं ॥ ६० ॥ इन्होंने देवताओंसे भी दुर्जय महा-
 वीर्यवान् बलिको बांध कर वज्रपाण इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य
 दे दिया था ६१ सब दैत्योंको तथा बलवानोंमें श्रेष्ठ कसको मारने
 के बाद इन केशिनिपूदनने भोजराजको मथुरापुगी दे दी थी ६२
 इन्होंने राज्य पर अपना अभिषेक नहीं कराया था और यह
 अपने राजमिहामन पर भी नहीं बैठे थे, अब ये राजेन्द्रत्वको
 पाकर मथुरापुगीमें आये हैं ॥ ६३ ॥ पुरवासियोंके इस निजी
 बातलापको सुन कर वन्दी मागध और मूर्तोंके दोनोंके स्वागी
 इव प्रकार कहने लगे ॥ ६४ ॥ हे गुणोदये ! आपके गुणोंके
 प्रभाव और उत्साहमे उपन्न हुए आपने गुणोंको हम अपनी
 एक मानुषी जिह्वामे दस सहस्रने हैं ॥ ६५ ॥ हे देव ! बुद्धि-

किं न्वद्भुतमिदं लोके मानवेन्द्रेषु भूतले । न भूतं न भविष्यञ्च
 शक्रादांगनमागतम् ॥ ६७ ॥ सभावतरणं चैव कलशैरागतं
 स्वयम् । न श्रुतं न च दृष्टं वा तेन मन्यामहेऽद्भुतम् ॥ ६८ ॥
 धन्या देवी महाभागा देवकी योपिता नरा । भवन्तं त्रिदशश्रेष्ठं
 धृत्वा गर्भेण केशवम् ॥ ६९ ॥ कृष्णं पद्मपलाशाक्षं श्रीपुञ्ज-
 ममगर्भितम् । नेत्राभ्यां स्नेहपूर्णाभ्यां वीक्ष्यते मुखपंकजम् ७०
 इति सञ्जल्पमानानां शृण्वन्तौ पृथगीरितम् । उग्रसेनं पुरस्कृत्य
 भ्रातरौ रागवेशवौ ॥ ७१ ॥ माकारद्वारि सम्प्राप्तावर्चयामास
 वै तदा । अर्घ्यमाचमनं दत्त्वा पाद्यं पाद्येति चाब्रवीत् ॥ ७२ ॥
 उग्रसेनस्ततो धीमान् केशवस्य रथाग्रतः । प्रणम्य शिरसा कृष्णं

मान् नागेन्द्र शेष अपनी दो सहस्र जिह्वाओंसे आपके गुणोंको
 शायद कह सके ॥ ६६ ॥ पर तु भूतलमें रह तो अद्भुत बात
 हुई है, कि—“मानवेन्द्रोंके बीचमें इन्द्रने आसन भेजा” ऐसी बात
 तो न कभी हुई है और न कभी होगी ॥ ६७ ॥ सभा (आसन)
 का उतरना और कलशोंका स्वयं (अगिपेक करनेके लिये)
 आना तो हमने न कभी देखा है और न कभी सुना है, इस
 लिये इस बातको हम अद्भुत मानते हैं ॥ ६८ ॥ स्त्रियोंमें श्रेष्ठ
 महाभागा देवी देवकी धन्य है क्योंकि—उसने देवताओंमें श्रेष्ठ
 केशवको अपने गर्भमें धारण किया गा ॥ ६९ ॥ अब वह लक्ष्मी
 के पुञ्जस्वरूप देवताओंसे अर्चित रूपलपतकी सगान नेत्रों वाले
 श्रीकृष्णके मुखकमलको अपने स्नेहपूर्ण नेत्रोंसे देख रही है ७०
 इस प्रकार बातचीत करने वाले मनुष्योंके भाषणको सुनते हुए
 राम और कृष्ण नामक दोनों भाई उग्रसेनको आगे करके जब
 माकारके द्वार पर पहुँच गए तब उग्रसेनने उनकी पूजाकी
 और अर्घ्य तथा आचमन देकर चारचार पाद्य २ कहने
 लगे ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ तदनन्तर बुद्धिमान् उग्रसेन वेशवके सामने

गजमारुह्य वीर्यवान् । धनवत्तोयधारेण वर्षर्ष कनकाम्बुभिः ७३
 धर्माधैर्वपेगाणस्तु सम्प्राप्तः पितृवेश्मनि । मथुराधिपतिः श्रीमान्-
 वान् मधुसूदनम् ॥ ७४ ॥ राजेन्द्रत्वगन्तुमाप्य युक्तं मे नृपवेश्मनि ।
 स्थापितुं देवराजेन दत्तं सिंहासनं प्रभो ॥ ७५ ॥ नेष्यामि मधु-
 रेशस्य सभां भुजबलान्जिताम् । प्रसादमिष्ये भगवन्न कोपं कर्तु-
 मर्हसि ॥ ७६ ॥ देवकी वसुदेवश्च रोहिणी च विशाम्पते । न
 किञ्चित् कारणे शक्ता हर्षवत्प्रमचिपोहिता ॥ ७७ ॥ कंसमाता ततो
 राजन्नर्चयापास केशवम् । नानादिदेशजानीतं कंसेनोपार्जितं
 धनम् ॥ ७८ ॥ देशकाल समालोक्य पादयुग्मे न्यवेदयत् । उग्र-
 सेनं समाहूय उवाच श्लक्ष्णया गिरा ॥ ७९ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ।

खड़े हुए और श्रीकृष्णको शिरसे मलाम कर वीर्यवान् उग्रसेन
 हाथी पर सवार होगए और जिस प्रकार बादल जलकी धारा
 बरसाता है इसी प्रकार सुवर्ण जल बरसाने लगे ॥ ७३ ॥ इस
 प्रकार जिनके ऊपर धनकी बाँधीर हीरही थी ऐसे श्रीकृष्ण
 अपने पिताके घर पहुँच गये उस समय श्रीमान् उग्रसेनने मधु-
 सूदन श्रीकृष्णसे कहा, कि ॥ ७४ ॥ हे प्रभो ! राजेन्द्रत्वको
 को पानेके बाद देवराजका दिया हुआ सिंहासन आप मेरे राज-
 घरमें रखें यही उचित है ॥ ७५ ॥ मैं उसे भुजबलसे इकट्ठी करी
 मधुरेशकी अर्थात् आपकी सभामें लेजाऊँगा, हे भगवन् ! आप
 प्रसन्न हूजिये और कोप न करिये ॥ ७६ ॥ हे राजन् ! देवकी
 वसुदेव और रोहिणी हर्षकृपामें विमोहित होकर कुछ भी काम
 नहीं करसकती थी ॥ ७७ ॥ हे राजन् ! उस समय कंसकी माता
 ने श्रीकृष्णकी पूजा करनेका विचार किया, उसने कंसका इकट्ठा
 किया हुआ अनेक देशोंसे लाया हुआ धन सभको देकर
 श्रीकृष्णके चरणोंमें निवेदन कर दिया, उस समय श्रीकृष्णने
 उग्रसेनको बुला कर मधुर बाणीमें कहा ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ श्रीकृष्ण

न चाहं मथुराकान्ती न मया वित्तकान्तया । घातितस्तव पुत्रोऽयं
 कालेन निधनं गतः ॥ ८० ॥ यजस्व विविधान् यज्ञान् ददस्व
 विपुलं धनम् । जयस्व रिपुसैन्यानि मम बाहुबलाश्रयात् ॥ ८१ ॥
 त्यजस्व मनसस्तापं कंसनाशोद्भवं भयम् । नयस्व वित्तनिधयं
 मया दत्तं पुनस्तव ॥ ८२ ॥ इति माश्वस्य राजानं कृष्णस्तु
 हस्तिना सह । प्रविवेश ततः श्रीमान् गातामित्रोरथान्तिकम् ८३
 आनन्दपरिपूर्णाभ्यां हृदयाभ्यां महाबली । पितृमात्रोऽस्तु पादान्
 वै नमश्चक्रतुरानतौ ॥ ८४ ॥ तस्मिन् मुहूर्ते नगरी मथुरा तु
 यभूव सा । स्वर्गलोकं परित्यज्यावतीर्णैवामरावती ॥ ८५ ॥
 वसुदेवस्य भवनं समीक्ष्य पुरवासिनः । मनसा चिन्तयामासुर्ब-
 लोकं न भूतलम् ॥ ८६ ॥ विसृज्य मथरेशन्तु महिषीसहितं
 तदा । भवनं वसुदेवस्य प्रविश्य बलकेशवौ ॥ ८७ ॥ न्यस्त-

ने कहा, कि-मैं मथुरापुरीको लेना नहीं चाहता था न मैंने धन
 की आकांक्षासे ही आपके पुत्रको मारा था तुम्हारा पुत्र तो काल
 के कारण ही मर गया था ॥ ८० ॥ अब आप मेरे भुजबलका
 आश्रय लेकर अनेक प्रकारक यज्ञ करिये, बहुतसा धनदान करिये,
 और शत्रुसेनाको जीतिये ॥ ८१ ॥ कंसके मनसे उत्पन्न हुए
 भयको और तापको दूर करिये इस धनके समूहको लेजाइये मैंने
 आपके फिर दे दिया ॥ ८२ ॥ श्रीकृष्ण और बलरामने इस
 प्रकार उग्रसेनको धीरज दिया फिर श्रीमान् श्रीकृष्ण बलदेवजीको
 साथ लेकर अपनी माता और पिताके पास गये ॥ ८३ ॥ उस
 समय उन महाबलवानोंने आनन्दपूर्ण हृदयसे अपने माता पिता
 के चरणोंमें झुक कर मणाम किया उस समय मथुरापुरी स्वर्ग-
 लोकको त्यागकर उत्तरी हुई अमरावतीसी प्रतीत होती थी, पुर-
 वासियोंने वसुदेवके भवनको देख कर अपने मनमें उसको भूतल न
 समझकर देवलोक समझा उग्रसेनको और उनकी रानीको विदा

शस्त्रावुर्भा वीरौ स्वगृहे स्वैरचारिणौ । ततः कृतान्हिकौ भूत्वा
सुखासीनौ कथान्तरे ॥ ८८ ॥ एतस्मिन्नेव काले तु महोत्पातो
वभूव ह । वभ्रमुश्च घनाकाशे चेलुश्च भुवि पर्वताः ॥ ८९ ॥ समुद्राः
क्षुभिताः सर्वे विभ्रान्तो भोगिनाम्बरः । कम्पिता यादवाः सर्वे
न्युञ्जारव पतिता भुवि ॥ ९० ॥ तौ तान्निपतितान् दृष्ट्वा राम-
कृष्णौ तु निभ्रलौ । महता पक्षवातेन विज्ञातौ पतगोत्तमम् ९१
ददर्श समनुप्राप्तं दिव्यस्रगनुलेपनम् । प्रणम्य शिरसा ताभ्यां
सौम्यरूपी कृतासनः ॥ ९२ ॥ तं दृष्ट्वा समनुप्राप्तं सचिवं सां-
पराधिकम् । धृतिगन्तं गरुडगन्तमुवाच बलिमूदनः ॥ ९३ ॥ स्वा-
गतं खेचरश्रेष्ठ सुरसेनारिगर्दन । विनताहृदयागन्द स्वागतं

करके बलराम और केशव वसुदेवजीके भवनमे घुसे थे ॥ ८७ ॥
तहाँ अपने घरमें उन दोनों वीरोंने अपने अस्त्रोंको धर दिया
और इच्छानुसार विचरण करने लगे तदनन्तर अपना आन्हिक
कर्म करके सुग्वपूर्वक बैठ कर बात चीत करनेलगे ॥ ८८ ॥ इसी
समय बड़ा भारी उत्पात होने लगा आकाशमें बादल मँडराने
लगे और पृथ्वी पर पर्वत काँपने लगे ॥ ८९ ॥ सब समुद्र क्षुब्ध
होगये मर्षोंमें शेषजी भी भ्रान्तसे होगये सब यादव काँपने लगे
और नीचेको मुख करके पृथ्वीमें गिर पड़े ९० वे दोनों उनको गिरे
हुए देखकर भी निश्चल रहे उन्होंने बड़े भारी पर्वोंकी वायुसे
पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुडजीको आता हुआ समझा ॥ ९१ ॥ इतनेमें
ही उन्होंने दिव्यमाला और चन्दनके लेप करने वाले गरुडजी
को आए हुए देखा उस समय गरुडजीने उन दोनोंको शिर
झुका कर प्रणाम किया और सौम्यरूप धारण करके बैठ गये
अपने बुद्धिसहायक मन्त्री धैर्यधारी गरुडजीको आया हुआ
देख कर राजा बलिको कृष्ट देने वाले श्रीकृष्णने कहा, कि-९३
हे देवताओंके शत्रुओंकी सेनाका गर्दन करने वाले पक्षिश्रेष्ठ

केशवप्रिय ॥ ६४ ॥ तमुवाच ततः कृष्णः स्थितं देवमिवापरम् ।
 तुल्यसामर्थ्या वाचा आसीनं विनतात्मजम् ॥ ६५ ॥ श्रीकृष्ण
 उवाच । यास्यामः पतमश्रेष्ठ भोजस्यान्तःपुरं गह्वम् । तत्र गत्वा
 सुखासीना मन्त्रयागो मनोनुगम् ॥ ६६ ॥ वीशम्पायन उवाच ।
 प्रविष्टौ तौ महावीर्यौ बलदेवजनार्दनौ । वैनतेयतृतीयौ च गुह्यं
 मन्त्रमथाब्रुवन् ॥ ६७ ॥ अवध्योऽसौ कृतोऽस्माक सुगहश्च रिपो-
 र्वलम् । कृतः सैन्यक्षयश्चोपि महानिति नराधिपैः ॥ ६८ ॥ बहु-
 लानि च सैन्यानि हन्तु वर्षशर्तैरपि । न शक्यामः क्षयं कर्तुं
 जरासन्धस्य बाहिनीम् ॥ ६९ ॥ अतोर्थं वैनतेय त्वां ब्रवीमि
 मथुरां पुरीम् । न भगोरावयोः श्रेयो न भवेदिति मे मतिः १००

गरुडजी ! आपका स्वागत है, हे विनताके हृदयको आनन्द देने
 वाले केशवप्रिय ! आपका स्वागत है ॥ ६४ ॥ उस समय
 दूसरे देवताकी सभान बैठे हुए विनतानन्दन गरुडजीसे श्रीकृष्ण
 जीने अपनी सामर्थ्यके अनुकूल वाणीमें उनसे बात चीत की ६५
 श्रीकृष्णने कहा, कि-हे पन्तिश्रेष्ठ ! हम भोजराजके अन्तःपुरमें
 चलते है तहाँ गा सुखपूर्वक बैठ कर अपने मनके अनुकूल बातें
 करेंगे ॥ ६६ ॥ वीशम्पायनजीने कहा, कि-उस समय महा-
 वीर्यवान् बलदेव और जनार्दन तहाँ पर गये और तीसरे गरुड
 जी भी तहाँ पर गए और गुप्त बात चीत करने लगे कि-६७
 इस (जरासन्ध और काल्यवन) को हमारा अवध्य बनादिपा
 गया है, और शत्रुकी सेना भी बड़ी है और बहुतसी सेनाका
 हमने संहार भी कर दिया है और दूसरे राजाओंसे भी कर-
 वाया है ॥ ६८ ॥ जरासन्धके पास बहुतसी सेना है जरासन्ध
 की सेनाका हम सैकड़ों वर्षोंमें भी क्षय नहीं कर सकते ६९
 हे वैनतय ! इस लिये मैं तुमसे कहता हूँ, कि-हम दोनोंके मथुरा-
 पुरीमें रहने पर हमारा कल्याण नहीं होसकता यह मेरा (पका)

गरुड उवाच । देवदेवं नमस्कृत्य गतोऽहं भवतोन्तिकात् । वासा-
 र्थपीक्षितुं भूमिं तव देव कुशस्थलीम् ॥१॥ गत्वाऽहं खे सगा-
 स्थाय समन्तादवलोक्य ताम् । दृष्ट्वाऽहं विबुधश्रेष्ठ पुरीं लक्षण-
 पूजिताम् ॥२॥ सागरानूपविपुलां मागुदकस्रवशीतलाम् । सर्वतो-
 दधिमध्येस्थामभेद्यां त्रिदशैरपि ॥ ३ ॥ सर्वरत्नाकरवर्णां सर्व-
 कागफलद्रुगाम् । सर्वतुकुसुमाकीर्णां सर्वतः सुमनोहराम् ॥ ४ ॥
 सर्वाश्रमाधिनामां च सर्वकागमुद्यैयुताम् । नरनारीसगाकीर्णां
 नित्यामोदविवर्धनीम् ॥५॥ प्राकारपरिखोपेतां गोपुराट्टालमालि-
 नीम् । विचित्रचत्वरपथां विपुलद्वारतोरणाम् ॥ ६ ॥ यन्त्रार्गल-
 विचित्राढ्यां हेमप्राकारशोभिताम् । नरनागाश्वकलिलां रथसैन्य-

विचार है १०० गरुड़जीने कहा, कि—हे देव ! मैं आप देवदेवको
 प्रणाम करके आपके बसने योग्य भूमिको देखनेके लिये कुशस्थली
 को गया था १०१ तहाँ मैंने आकाशमें स्थित होकर उस पुरीको
 चारों ओरसे देखा तो हे विबुधश्रेष्ठ ! मैंने उस पुरीको सब
 लक्षणोंसे पूजित देखा १०२ तहाँ पर समुद्रके बहुतसे अनूप
 (जलप्राय देश) थे और पहिले जल आनेसे वह शान्तल होरही
 थी, और चारों ओरसे समुद्रके बीचमें स्थित थी उसको देवता
 भी कठिनतासे भेद सकते हैं १०३ तहाँ पर सब रत्नोंकी खानें हैं
 और सब कामनाओंको पूर्ण करने वाले फल देने वाले वृक्ष है
 तहाँ सब ऋतुओंके पुष्प आते रहते हैं और वह चारों ओरसे
 मनोहर हैं १०४ तहाँ पर सब आश्रमोंके मनुष्य रह सकते हैं और
 तहाँ पर सबके सब इष्टगुण मिलते हैं तहाँ पर रहनेसे सदा
 आनन्द बढ़ता रह सकता है और बहुतसे मनुष्य और स्त्रियों भी
 सगा सकती हैं १०५ उसमें प्राकार तथा परिखा हैं और भरोखे
 तथा बुर्ज हैं, विचित्र चौराहे है और उसके द्वार तथा तोरण भी
 बड़े २ हैं १०६ उसमें बड़े २ यंत्र और जंजीरे हैं और वह सुवर्ण

समाकुलाम् ॥ ७ ॥ नानादिग्देशजाकीर्णा दिव्यपुष्पफलद्रुमाम् ।
 पताका-वज्रमालाढर्या महाभवनशालिनीम् ॥८॥ भीषिणीं रिपु-
 संघानां मित्राणां हर्षवर्धनीम् । मनुजेन्द्राधिवासेभ्यो विशिष्टां
 नगरोत्तमाम् ॥९॥ रैवतं च गिरिश्रेष्ठं कुरु देव सुरालयम् । नन्दन-
 प्रतिमं दिव्य पुरद्वारस्य भूपणम् ॥ ११० ॥ कारयस्वाधिवासं
 च तत्र गत्वा सुरोत्तम । कुमारीणां प्रचारश्च सुरमणो भविष्यति
 नाम्ना द्वारवती ज्ञेया त्रिषु लोकेषु विश्रुता । भविष्यति पुरी
 रम्या शक्रस्येवामरावती ॥ १२ ॥ यदि स्यात् समृतां भूमिं
 प्रदास्यति महोदधिः । यथेष्टविविधं कर्म विश्वकर्मा करिष्यति १३
 मणिमुक्तामवालाभिर्बज्रैर्दूर्यसप्रभैः । दिव्यैरभिप्राययुतैर्दिव्य-
 रत्नैस्त्रिलोकजैः ॥ १४ ॥ दिव्यस्तम्भशताकीर्णान् स्वर्गे देव-

के परकोटीसे सुशोभित है १०७ उसमें अनेक देश और दिशाओं
 में उत्पन्न हुए पदार्थ हैं तथा उसमें दिव्य पुष्प फल और वृक्ष
 हैं, उसमें पताका और ध्वजा हैं और बड़े २ भवन हैं १०८ वह
 शत्रुसंघको भयभीत करती रहती है और मित्रोंके हर्षको बढ़ाती
 रहती है, और वह राजाओंके निवासभवनोंमें उत्तम,
 नगररूप है १०९ नन्दनवनकी समान दिव्य पुरद्वारके भूपणरूप
 रैवतपर्वतके आप देवालय बनाइये ११० हे सुरोत्तम ! आप तहाँ
 जाकर अपना निवास-स्थान बनाइये तहाँ-पर कुमारियों भी
 मुखपूर्वक रमणीयतासे विचरण कर सकेंगी ॥ १११ ॥ उस
 तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध पुरीका नाम द्वारिका होगा और वह पुरी
 इन्द्रकी अपरावती नगरीकी समान रमणीय होजावेगी ११२
 यदि समुद्र उस ढकी हुई भूमिको देदेगा, तो विश्वकर्मा उसमें
 यथेष्ट कर्म करेंगे ॥ ११३ ॥ हे प्रभो ! आप रत्न और वैदूर्य
 मणिकी समान आभा वाले मणि मुक्ता और मूँगोंसे दिव्य अभि-
 प्राययुक्त तीनों लोकोंमें उत्पन्न हुए दिव्य रत्नोंसे सहस्रों दिव्य

सभोपमान् । जाम्बूनदमयाञ्छुभान् सर्वरत्नविभूषितान् ॥ १५ ॥
 दिव्य-वज्रपताकाढधान देवगन्धर्वपालितान् । चन्द्रसूर्यप्रती-
 काशान् प्रासादान् कारय प्रभो ॥ १६ ॥ वैशम्पायन उवाच ।
 एवं कृत्वा तु संकल्पं वैनतेयोऽथ केशवम् । प्रणम्य शिरसा
 ताभ्यां निपसाद कृतासनः ॥ १७ ॥ कृष्णोपि रामसहितो
 विचिन्त्य हितपीरितम् । प्रकाशं कर्तुंकार्मो तौ विसृज्य विन-
 तात्मजम् ॥ १८ ॥ सत्कृत्य विधिवद्वाजन् महार्हवरभूषणैः ।
 मोदेते सुखिनीं तत्र सुरलोके यथाऽपरां ॥ १९ ॥ तस्य तद्वचनं
 श्रुत्वा भोजराजो महायशाः । कृष्णं स्नेहेन विस्रब्धं वभापे वच-
 नामृतम् ॥ २० ॥ कृष्ण कृष्ण महावाहो यदूनां नन्दिदर्शन ।
 श्रुतां वचनं त्वद्य वक्ष्यामि रिपुमूदन ॥ २१ ॥ त्वया विहीनाः
 स्तंभोसे व्याप्त, स्वर्गकी देवसभाकी समान उपमा वाले सुवर्णके
 शुभ्र सब रत्नोंसे विभूषित, दिव्य ध्वजा और पताका वाले,
 देवता और गंधर्वोंसे रक्षित चन्द्रमा और सूर्यकी समान भवनोंको
 बनवाइये ॥ ११४—११६ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-विनता-
 नन्दन गरुड़नी केशवसे इस प्रकार बातचीत करके उन दोनोंको
 शिर झुका प्रणाम कर बैठ गए ॥ ११७ ॥ श्रीकृष्णने और चल-
 ररपने अपने हिनकी बात सुन कर उसको प्रकाशित करनेकी
 इच्छासे बहुमूल्य आभूषणोंसे विनतानन्दनका गलीभाँति सत्कार
 करके उनका विदा कर दिया और अपने आप सुरलोकमें घूमने
 वाले देवताओंकी समान तहाँ सुखपूर्वक विनरण करने लगे महा-
 यशस्वी भोजराजने गरुड़नीके वचनको सुन कर स्नेहविश्रब्ध
 श्रीकृष्णसे यह वचनमृत कहा, कि- ॥ १२० ॥ हे यादवोंके
 आनन्दको बढ़ाने वाले महाशुभ्र कृष्ण ! हे रिपुमूदन कृष्ण !
 मैं जो बात आपसे कहना हूँ, उसको आप सुनिये ॥ १२१ ॥
 यह नगर हो वा दूसरा नगर हो हम आपके बिना पतिहीन

सर्वे स्म न शक्ताः सुखमाप्सितुम् । पुरेऽस्मिन् विषयान्ते वा पति-
हीना इव स्त्रियः ॥ २२ ॥ त्वत्सनाथा वयं तात त्वद्वाहुवल-
माश्रिताः । विभीमो न नरेन्द्राणां सेन्द्राणामपि मानद ॥ २३ ॥
विजयाय यदुश्रेष्ठ यत्र यत्र गमिष्यसि । तत्र त्वं सहितोऽस्माभि-
र्गच्छेथा यादवर्षभ ॥ २४ ॥ तस्य राज्ञो वचः श्रुत्वा सस्मितं
देवकीसुतः । यथेष्टं भवतामद्य तथा कर्तास्म्यसंशयम् ॥ २५ ॥
इति श्रीमहाभारते ग्विलेपु हरिचंशे विष्णुपर्वणि मन्त्रोदाहरणे
रुक्मिणीस्वयम्वरे राजेन्द्राभिषेचनसमाप्तिर्नाम

पञ्चपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥

वैशम्पायन उवाच । कस्यचित्त्वथ कालस्य सभ्यास्तान्
यदुसंसदि । वभाषे पुण्डरीकान्तो हेतुगद्वाक्यमुत्तमम् ॥ १ ॥
यादवानामियं भूमिर्मथुरा राष्ट्रमालिनी । वयं चैवेह सम्भूता व्रजे
च परिनिर्धिनाः ॥ २ ॥ तदिदानीं गतं दुःखं शत्रवश्च पराजिताः ।

स्त्रियोकी समान सुखपूर्वाक नही रह सकेंगे ॥ १२२ ॥ हे नाथ !
हम आपसे सनाथ हैं और हे मानद ! आपके भुजबलका आश्रय
पाते रहने पर हम इन्द्रसहित देवताओंसे भी नहीं डर सकते १२३
हे यादवश्रेष्ठ ! हे यादवर्षभ ! आप जहाँ २ चले तहाँ २ पर
विजय करनेके लिये आप हमें भी लेचलिये ॥ १२४ ॥ उस
राजाके वचनको सुन कर देवकीपुत्रने मुँकुरा कर कहा, कि—
आज मैं आपकी इच्छानुसार ही सब काम करूँगा ॥ १२५ ॥
पचपनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५५ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि एक समय यादवोंकी सभामें पुण्डरी-
कान्त श्रीकृष्णने उनसे हेतुयुक्त उत्तम वचन कहा, कि— १ ॥
यह राष्ट्रमालिनी मथुरा यादवोंकी भूमि है, हम भी यहाँ ही उत्पन्न
हुए हैं और व्रजमें बड़े हुए हैं ॥ २ ॥ इस समय हमारा दुःख
दूर होगया, शत्रुओंको भी हमने हरा दिया है, राजाओंसे हमने

नृपेषु जनितं वैरं जरासन्धेन विग्रहः ॥ ३ ॥ वाहनानि च नः
 सन्ति पादात्तं चाप्यनन्तकम् । रत्नानि च विचित्राणि मित्राणि
 च बहूनि च ॥ ४ ॥ इयं च माथुरी भूमिरल्पा गम्या परस्य तु ।
 वृद्धिश्चैव परास्माकं बलतो मित्रतस्तथा ॥ ५ ॥ कुमारकोटयो
 याश्चेमाः पदातीनां गणाश्च ये । एषामपीह वसता सम्पर्दमुप-
 लक्ष्ये ॥ ६ ॥ अत्र नो रोचते मह्यं निवासो यदुपुङ्गवाः । पुरीं
 निवेशयिष्यामि मम तत्तन्तुमर्हथ ॥ ७ ॥ एतद्यदनु रूपं वो ममाभि-
 प्रायजं वचः । भवाय भवतां काले यदुक्तं यदुसंसदि ॥ ८ ॥
 तमूचुर्यादवाः सर्वे हृष्टेन मनसा तदा । साध्यतां यदभिप्रेत जन-
 स्यास्य भवाय वै ॥ ९ ॥ ततः सम्मन्त्रयामासुर्वृष्णयो मन्त्र-
 मुत्तमम् । अवध्योऽसौ कृतोऽस्माकं सुमहच्च रिपोर्वलम् ॥ १० ॥

वैर कर लिया है और जरासंधसे युद्ध भी ठान लिया है ॥ ३ ॥
 अब हमारे पास वाहन है, और अनन्त पैदल भी है, बहुतसे
 विचित्र रत्न हैं और अब हमारे बहुतसे मित्र भी हो गए हैं ४
 परन्तु यह मथुरापुरीकी भूमि थोड़ी है और शत्रु इस पर आक्रमण
 कर सकते हैं, और हमारे मित्रों तथा सेनादलकी वृद्धि इस समय
 बहुत अधिक होरही है प्रइन् करोड़ों कुमार और पैदलोंके बसने
 पर ही यहाँ बड़ी भारी विचपिच रहती है ॥ ६ ॥ (इस लिये)
 हे यदुपुङ्गवों ! अब मुझे यहाँका रहना अच्छा नहीं जँचता अतः
 मैं (दूमरी) पुरी बसाना चाहता हूँ, इस मेरे (अपराधको)
 आप क्षमा करें ॥ ७ ॥ मैंने यादवोंकी सभामें आपका कल्याण
 करनेके लिये जो अपना अभिप्राय प्रकट किया है, इसको आप
 क्या उचित मानते हैं ॥ ८ ॥ तब सब यादवोंने प्रसन्न मनसे
 कहा, कि-आप इस जनममूहका कल्याण करनेके लिये जिस
 उपायको उचित समझें, करिये ९ उम समय वृष्णि उचम सलाह
 करने लगे, कि-इसको हमसे अवध्य बना दिया गया है और

कृतः सैन्यक्षयश्चापि महानिह नराधिपैः । बहुत्वानि च सैन्यानि
 हन्तुं वर्षशतैरपि । न शक्यामो ह्यनस्तेषामपयाने भवन्मतिम् ११
 तस्मिंश्चैवान्तरे राजा स कालयवनस्तदा । सैन्येन तद्विधेनैव
 मथुरामभ्युपागमत् ॥ १२ ॥ ततो जरासन्धवलं दुर्निवार्यमभू-
 तदा । ते कालयवनं चैव श्रुत्वेदं प्रतिपेदिरे ॥ १३ ॥ केशवः
 पुनरेवाह यादवान् सत्यसद्गुरः । अथैव दिवसः पुण्यो निर्गमः
 स्वबलानुगाः ॥ १४ ॥ ततो निश्चक्रमुः सर्वे यादवाः कृष्णशास-
 नात् । श्रोत्रा इव समुद्रस्य बलौघपतिनादिताः ॥ १५ ॥ संगृह्य
 ते कलत्राणि वसुदेवपुरोगमाः । सुसन्नद्धैर्गजैर्मत्तै रथैरश्वैश्च
 दंशितैः ॥ १६ ॥ आहत्य दुन्दुभीन सर्वे स्वजनज्ञातिवांशवाः ।

शत्रुकी सेना भी बहुत बड़ी है १० यहाँ पर राजाओंने सेनाका
 बड़ा भागी ज्ञय भी कर डाला है, तब भी सेनाएँ बहुत है, हम
 उनका सैंकड़ों वर्षों भी संहार नहीं कर सकते, अतः अब यहाँ
 से भागनेका विचार करना चाहिये ११ इसी समय राजा जरा-
 सन्ध भी कालयवनको तथा जैसे ही सेनाको साथमें लेकर मथुरा-
 पुरी पर चढ़ आया १२ उस समय जरासन्धका सेनादल बड़ा
 दुर्निवार्य हो रहा था, (कालयवन मथुराका अवध्य है) यह
 सुन कर उन्होंने कालयवनकी शरण ली थी १३ उस समय
 सत्यमतिज्ञ यादवोंने केशवसे फिर कहा, कि-आज पवित्र दिन
 है, इस लिये आज ही अपनी सेना और अनुयायियोंको लेकर
 चलना चाहिये । १४ ॥ उस समय श्रीकृष्णजीकी आज्ञा होने
 पर सब यादव अपनी सेनाओंके नादसे समुद्रके प्रवाहकी
 समान नाद करते हुए तहाँसे चल पड़े ॥ १५ ॥ वसुदेव आदि
 उस समय अपनी स्त्रियोंको ले तयार किये हुए मदमत्त
 हाथी रथ और घोड़ों पर सवार होकर चले ॥ १६ ॥
 (इस प्रकार) सब यादव अपने सब जाति बान्धवोंको साथ

निर्ययुर्वादिवाः सर्वे मथुरामपहाय वी ॥१७॥ स्यन्दनैः कांचना-
पीदैर्मत्तैश्च वरवोरणैः । सूतैः प्लुतैश्च तुरगैः कशापाट्णिणणो-
दितैः ॥१८॥ स्वानि स्वानि वलाग्राणि शोभयन्तः प्रकर्षिणः ।
प्रत्यङ्मुखा ययुर्हृष्टा वृष्णयो भरतर्षभ ॥ १६ ॥ ततो मुख्य-
तराः सर्वे यादवा रणकोविदाः । अनीकाग्राणि कर्षन्तो वासु-
देवपुरोगमाः ॥ २० ॥ ते स्म नानालताचित्रं नालिकेरवनायु-
तम् । कीर्णं नागधनैः कान्तं केतकीखण्डमण्डितम् ॥ २१ ॥
तालपुन्नागवकुलद्राक्षावनघनं क्वचित् । अनूपं सिन्धुराजस्य
प्रपेतुर्यदुपुङ्गवाः ॥ २२ ॥ ते तत्र रमणीयेषु विषयेषु सुखमियाः ।
सुमुदुर्वादिवाः सर्वे देवाः स्वर्गगता इव ॥२३॥ पुरवास्तुविचि-
न्वन सः कृष्णस्तु परवीरहा । ददर्श त्रिपुलं देशं सागरेणोप-

ले दुन्दुभिये वजा कर मथुराको छोड़ कर चल दिये ॥ १७ ॥
हे भरतर्षभ ! वृष्णिवशी प्रसन्न होकर पूर्वदिशाकी ओर मुख
करके काञ्चनके आपीड़ वाले रथों पर और मद्मत्त श्रेष्ठ हाथियों
पर सवार हो चल दिये उस समय सूत (उनकी आज्ञा पाते
ही) क्रुद कर (रथों पर सवार होगए थे) और घोड़े भी चाबुक
फटकारनेसे क्रुदते हुए चलने लगे थे, इस प्रकार वे अपनी २
सेनाके अग्रभागोंको लेजाते हुए शोभा पारहं थे ॥१८॥१६॥
तदनन्तर रणचतुर वासुदेव आदि मुख्य २ यादव अपनी सेनाके
अग्रभागको खंचते हुए नाना लताओंसे चित्र विचित्र नारिकेल
के वनसे युक्त, गुरसकरी युक्त और केतकी (केवड़े) के वृक्षोंसे
मण्डित, ताल जायफल वकुल और द्राक्षावन वाले सिन्धुराज
के अनूप देशमें पहुँच गए ॥ २०-२२ ॥ जिसप्रकार स्वर्गमें
पहुँचने पर देवता आनन्द करते हैं इसी प्रकार सुखमिय यादव
तहाँ रमणीय विषयोंमें आनन्द करने लगे २३ शत्रुओंके वीरोंका
नाश करने वाले श्रीकृष्णने नगरके (योग्य) स्थानका विचार

शोभितम् ॥ २४ ॥ वाहनानां हितं चैव सिकताताम्रमृत्तिकम् ।
 पुरलक्षणसम्पन्नं कृतास्पदमिव श्रिया ॥ २५ ॥ सागरानिल-
 मम्बीतं सागराम्बुनिषेवितम् । विषयं सिन्धुराजस्य शोभितं
 पुरलक्षणैः ॥ २६ ॥ तत्र रैवतको नाम पर्वतो नातिदूरतः । मंदरो-
 दारशिखरः सर्वतोऽभिचिराजते ॥ २७ ॥ तत्रैकलव्यसम्वासो
 द्रोणेनाध्युपिनश्चिरम् । प्रभूतपुरुषोपेतः सर्वरत्नसमाकुलः ॥ २८ ॥
 विहारभूमिस्तत्रैव तस्य राज्ञः सुनिर्मिता । नाम्ना द्वारवती नाम
 स्वायताष्टापदोपमा ॥ २९ ॥ केशवेन मतिस्तत्र पुर्यर्थं विनिवेशिता ।
 निवेशं तत्र सैन्यानां रोचयन्ति स्म यादवाः ॥ ३० ॥ ते रक्त-
 सूर्गदिवसे तत्र यादवपुङ्गवाः । सेनापालांश्च संचक्रुः स्कन्धावार-

करते २ समुद्रसे शोभित बड़े भारी देशको देखा ॥ २४ ॥ वह
 बांहनोंका हित करने वाला था, तहाँ पर ताँबेकी रंगकी रेती
 वाली पृथ्वी थी और वह अपनी लक्ष्मीसे नगरकी शोभासंपन्न
 दीखता था ॥ २५ ॥ तहाँ पर समुद्रीय वायु भर रही थी और
 समुद्रका जल उसकी सेवा कर रहा था, ऐसा वह सिन्धुराजका
 विषय नगरके लक्षणोंसे युक्त था ॥ २६ ॥ तहाँसे थोड़ी दूर
 पर मन्दराचलका बड़ा भारी शिखर रैवत नामक पर्वत चारों
 ओरसे शोभा दे रहा था ॥ २७ ॥ तहाँ एकलव्यका निवासस्थान
 था और द्रोणाचार्य भी चिरकाल तक तहाँ रहे थे, तहाँ पर
 बहुतसे पुरुष रहते थे और अनेक प्रकारके रत्न भरें हुए थे २८
 उस राजाकी तहाँ विहारभूमि बनी हुई थी, और वह नगरी
 अठपहलू (शारिकाफल) की समान थी और द्वारवती नाम
 वाली थी ॥ २९ ॥ तहाँ पर केशवने अपनी पुरी बसानेका
 विचार किया, तहाँ पर यादवोंने निवास करना अच्छा समझा ३०
 तदनन्तर यादवपुङ्गवोंने जिस समय सूर्ग रक्त हो रहा था उस
 समय दिनमें सेनापतियोंको स्कन्धावारनिवेशन बनानेकी आज्ञा

निवेशनम् ॥ ३१ ॥ ध्रुवाय तत्र न्यवसत् केशवः सह यादवैः ।
देशे पुरनिवेशाय स यदुप्रचरो विभुः ॥ ३२ ॥ तस्यास्तु विधि-
वन्नामवास्तूनि च गदाग्रजः । निर्ममे पुरुषश्रेष्ठो मनसा यादवो-
त्तमः ॥ ३३ ॥ एवं द्वारवतीं चैव पुरीं प्राप्य सवान्धवाः । सुखिनो
न्यवमनाजन् स्वर्गे देवगणा इव ॥ ३४ ॥ कृष्णोपि कालयवनं
ज्ञात्वा केशिनिपूदनः । जरासन्धभयाञ्चैव पुरीं द्वारवतीं यया ३५
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि द्वारवती-
प्रयाणं नाम पट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥

जनमेजय उवाच । भगवञ्छ्रोतुमिच्छामि विस्तरेण महात्मनः ।
चरितं वासुदेवस्य यदुश्रेष्ठस्य धीमतः ॥ १ ॥ किमर्थं च परि-
त्यज्य मथुरां मधुसूदनः ! मध्यदेशस्य ककुद्दं धाम लक्ष्म्याश्च
केवलम् ॥ २ ॥ शृंग पृथिव्याः स्वालक्ष्यं प्रभूतधनधान्यवत् ।
आर्याढ्यनलभूयिष्ठमधिष्ठानवरोत्तमम् ॥ ३ ॥ अपुद्गेनैव दाशा-

दी ३१ यदुप्रचर विभु श्रीकृष्ण उस देशमें नगर वसानेकी हदता
के कारण तहाँ यादवोंके साथ २ खड़े रहे ३२ उस पुरीका नाम
और तहाँके घरोंको यादवोत्तम पुरुषश्रेष्ठ गदाग्रजने अपने मनमें
ही विचार लिया ३३ हे राजन् ! इस प्रकार यादवोंने अपने
पांथवों सहित द्वारवतीपुरीमें आकर स्वर्गमें देवताओंकी समान
सुखपूर्वक निवास किया ३४ केशिका नाश करने वाले श्रीकृष्ण
कालयवनको जान कर जरासन्धके भयसे (इस प्रकार) द्वारवती
पुरीमें आगए थे ३५ छपनवाँ अध्याय समाप्त ५६

जनमेजयने कहा, कि हे भगवन् ! मैं महात्मा बुद्धिमान्
यदुश्रेष्ठ वासुदेवके चरित्रको विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ?
श्रीकृष्णने मथुरापुरीको क्यों छोड़ दिया था, वह स्थान तो मथुरा-
पुरीका ककुदरूप है और लक्ष्मीका स्थानरूप है २ पृथ्वीका
शिखररूप है, भली प्रकार लक्ष्ममें आजाता है और बहुतसे धन

ईस्त्यक्तवान् द्विजसत्तम । स कालयवनश्चापि कृष्यो किं प्रत्य-
 पद्यत ॥ ४ ॥ द्वारकां च समासाद्य वारिदुर्गा जनार्दनः । किं
 चकार महाबाहुर्महायोगी महातपाः ॥५॥ किं वीर्यः कालयवनः
 केन जातश्च वीर्यवान् । यमसह्यं समालक्ष्य व्यपयातो जनार्दनः ६
 वैशम्पायन उवाच । वृष्णीनामन्धकानां च गुरुर्गार्गी महामनाः ।
 ब्रह्मचारी पुरा भूत्वा न स्प दारान् स विन्दति ॥ ७ ॥ तथा
 हि वर्तमानं तमूर्ध्वरेतमपन्ययम् । श्यालोऽभिशस्तवान् गार्ग्य-
 मपुम निति राजनि ॥ ८ ॥ सोऽभिशस्तस्नदा राजन्नगरे त्व-
 जितञ्जये । अलिप्तसंस्तु स्त्रियं चैव तपस्तेपे सुदारुणम् ॥ ९ ॥
 ततो द्वादशवर्षाणि सोयऽश्चूर्णमभजयत् । आराधयन्गहादेवम-
 चिन्त्यं शूलपाणिनम् ॥१०॥ रुद्रस्तस्मै वरं प्रादात् समर्थं युधि

धान्यसे संपन्न है आर्यपुरुष और जलसे विभूषित है और श्रेष्ठ
 स्थान है ३ हे द्विजसत्तम ! दाशाईने उसको निष्कारण ही क्यों
 छोड़ दिया था और उस कालयवनने भी श्रीकृष्णका क्या किया
 था ॥ ४ ॥ महाबाहु महायोगी और महातपस्वी जनार्दनने जल
 के दुर्ग वाली द्वारिकापुरीमें आकर क्या किया था ॥ ५ ॥ काल-
 यवनका कैसा वीर्य था और वह वीर्यवान् किससे उत्पन्न हुआ
 था, कि-जिसको असह्य मान कर जनार्दन भाग गए थे ॥ ६ ॥
 वैशम्पायनजीने कहा, कि-गार्ग्य मुनि वृष्णिवंशी और अंधक-
 वंशी राजाओंके गुरु है, ये महामनस्वी पहिले ब्रह्मचारी रहते
 थे और (विद्यमान) स्त्रियोंके पास भी नहीं जाते थे ॥ ७ ॥
 वह ऐसा बर्ताव करते थे उन अच्युत ऊर्ध्वरेतासे राजसभामें
 श्यालने अपुगान् (हीजड़ा) कहा था ८ उन मुनि पर जीतनेमें
 न आने वाले नगरमें इस प्रकार आक्षेप किया था परन्तु तब
 भी उन्होंने स्त्रीकी इच्छा न कर दारुण तप किया ॥ ९ ॥ उन्हों-
 ने बारह वर्ष तक लोहेका चूर्ण भक्षण करते हुए अचिन्त्य शूल-

निग्रहे । वृष्णीनामन्यकानां च सर्वतेजोमयं सृतम् ॥ ११ ॥ ततः
 शुश्राव तं राजा यवनाधिपतिर्वरम् । पुत्रमसवजं देवादपुत्रः पुत्र-
 कागिता ॥ १२ ॥ स नृपस्तमुपानाञ्च्य सान्त्वयित्वा द्विजोत्त-
 मम् । तं घोपमध्ये यवनो गोपस्त्रीषु समासृजत् ॥ १३ ॥ गोपाली
 त्वप्सरा तत्र गोपस्त्रीवेषमगच्छी । भारयामास गार्ग्यस्य गर्भं
 दुर्धरमच्युतम् ॥ १४ ॥ मानुष्यां गार्ग्यभार्यायां नियोगाच्छ्रुत-
 पाणिनः । स कालयवनो नाम जज्ञे शूरो महाबलः ॥ १५ ॥
 अपुत्रस्याथ राज्ञस्तु बध्नेन्तः पुरे शिशुः । तस्मिन्नुपरते राजन्
 स कालयवनो नृपः ॥ १६ ॥ युद्धाभिकागो नृपतिः पर्यपृच्छद्
 द्विजोत्तमान् । वृष्यन्यककुलं तस्य नारदेन निवेदितम् ॥ १७ ॥

पाणि भगवान् महादेवकी उपासना की थी ॥ १० ॥ तब
 रुद्रने उनको वर दिया, कि-तुम्हारा पुत्र युद्धमें वृष्णि और
 अंधकोंका निग्रह करनेमें समर्थ होगा और वह सर्वतेजोमय
 होगा ॥ ११ ॥ इस पुत्रनिमित्तक वरको राजा यवनाधिपतिने
 सुना, पारञ्चवश वह अपुत्र था और पुत्रकी अभिलाषा करता
 रहता था ॥ १२ ॥ इस लिये वह राजा उनको समझा बुझा
 कर अपने घर ले आया फिर उस यवनने उनको घोपके मध्यमें
 गोपस्त्रियोंमें छोड़ दिया ॥ १३ ॥ तहाँ पर एक गोपालीनामकी
 अप्सरा गोपस्त्रीका वेश धारण करके रहती थी, उसने गार्ग्यके
 दुर्धर और अच्युतगर्भको धारण कर लिया था ॥ १४ ॥ इस
 प्रकार श्रुतपाणि महादेवके वचनसे गार्ग्यकी मानुषी भार्यामें
 महाबली शूरवीर कालयवन उत्पन्न हुआ था ॥ १५ ॥ तदनन्तर
 उस पुत्ररहित राजाके अन्नःपुरमें वह बालक बड़ा होने लगा और
 हे राजन् ! उसके मरने पर कालयवन राजा होगया ॥ १६ ॥
 उस राजाने युद्धकी इच्छासे ब्राह्मणोंसे बुझना आरम्भ किया तब
 नारदजीने उसे वृष्णि और अन्धकोंका वंश वनजा दिया १७

ज्ञात्वा तु वरदानं तन्नारदान्मधुसूदनः । उगमैतत तेजस्वी वर्धतं
 यवनेश्वरम् ॥१८॥ समृद्धो हि यदा राजा यवनानां महाबलः ।
 तत एनं नृपा म्लेच्छाः संश्रित्याज्ययुस्तदा ॥१९॥ शकास्तुपारा
 दरदाः पारदाः शृङ्गलाः खसाः । पल्लवः शतशथान्ये म्लेच्छा
 हैमवतास्तथा ॥ २० ॥ स तैः परिवृतो राजा दक्षुणिः शलभै-
 रिव । नानावेपायुधैर्भूमैर्मथुरामभ्यवर्तत ॥ २१ ॥ गजवाजि-
 खरोष्ठाणामयुतैर्बुदैरपि । पृथिवीं कम्पयाणास सैन्येन महता
 तदा ॥ २२ ॥ रेणुना सूर्यमार्गं तु समवच्छाद्य पाथिवः । सूत्रेण
 शकृगा चैव सैन्येन ससृजे नदीम् ॥२३॥ अश्वोष्णकृतां राशो-
 निःसृतेति जनाधिप । ततोऽश्वशकृदित्येव नाम नद्या वभूव इ२४
 तत्सैन्यं महादागद्वा श्रुत्वा वृष्णपन्धकाग्रणीः । वासुदेवः सगा-

तेजस्वी मधुसूदन श्रीकृष्णने नारदजीसे इस वरदानको सुन कर
 भी उसे बढ़ते हुए यवनेश्वरकी उपेक्षाकी थी जब यवनोंका राजा
 महाबली कालयवन समृद्ध होगया तब म्लेच्छ राजे उसका आश्रय
 लेकर उसके अनुकूल चलने लगे ॥ १८ ॥ १९ ॥ शक, तुषार,
 दरद, पारद, शृङ्गल, खश, पल्लव और भी सैंकड़ों हिमाचलमें
 उत्पन्न हुए म्लेच्छ, उसके आधीन रहने लगे) ॥ २० ॥ अनेक
 प्रकारका नेष और आयुध धारण करने वाले तीड़ियोंकी समान
 लन ढाँकुओंसे घिरा हुआ वह राजा मथुरापुरी पर चढ़ आया २१
 उस समय उसने बड़ीभारी सेनासे और लाखों श्वों हाथी,
 घोड़े, गधे और ऊँटोंसे पृथ्वीको कँपा डाला था ॥ २२ ॥ उस
 राजाने धूलसे-सूर्यके मार्गको ढक दिया था और सेनाओंके मल
 सूत्रकी नदी बना दी थी २३ हे राजन् ! वह नदी हाथी और
 और ऊँटोंकी मलकी राशिसं निकली थी इस लिये उस नदीका
 नाम अश्वशकृत् पड़ा था २४ वृष्ण और अनेक वंशियोंके
 चौधरी श्रीकृष्णने उस बड़ीभारी सेनाके आनी हुई सुन कर

(४७६) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [सप्तपञ्चाशो

नाद्य वृष्णीनिदमुवाच ह ॥ २५ ॥ इदं समुत्थितं घोरं वृष्णय-
न्यकभयं महत् । अन्वयश्चापि नः शत्रुर्वरदानात् पिनाकिनः २६
सागादयोऽभ्युपायाश्च विहितास्तेऽस्य सर्वशः । भक्तो मद्वन्ताभ्यां
तु युद्धमेव चिकीर्षति ॥ २७ ॥ एतावानिह वासश्च कथितो नार-
देन मे । एतावति च वक्तव्यं सामैव परम मतम् ॥ २८ ॥ जरा-
सन्धश्च नो राजा नित्यमेव न मृष्यते । तथाऽन्ये पृथिवीपाला
वृष्णिचक्रपतापिताः ॥ २९ ॥ केचित् कंसवधाच्चापि विरक्ता-
स्नद्गता नृपाः । समाश्रित्य जरासन्धमस्मानिच्छन्ति वाधितुम् ३०
वहवो ज्ञातयश्चैव यदूनां निहता नृपैः । विवर्धितुं न शक्यपाम
पुरेऽस्मिन्निति वेशवः ॥ ३१ ॥ अपयाने मनिं कृत्वा दूतं तस्मै
ससर्ज ह ! ततः कुम्भे महासर्पं भिन्नांजनचयोपमम् ॥ ३२ ॥
घोरमाशीविषं कृष्णं कृष्णः प्राज्ञेपयत्तदा । ततस्तं मुद्रयित्वा तु

वृष्णियोंको बुलाकर यह बात बही, कि- २५ यह बड़ा भारी
भय हमारे ऊपर आरहा है और शिवजीके वरदानसे यह शत्रु
भी हमसे अब यह है २६ हमने इससे साग आदि सब उपाय चला
लिये परन्तु यह मद वलसे मत्त होनेके कारण युद्ध ही करना
चाहता है २७ नारदजीने हमें यहाँका इतना ही रहना बता दिया
है ऐसा होने पर भी समझाना ही श्रेष्ठ बात मानी जाती है २८
परन्तु राजा जरासन्ध हमें देख नहीं सकता और वृष्णियोंके
चक्रसे तप्त हुए दूसरे राजे भी हमें नहीं देख सकते ॥ २९ ॥
कुत्र राजे कंसके वधसे विरक्त होकर उसके पास पहुँच गए हैं
और वे जरासन्धका आश्रय लेकर हमें पीड़ा देना चाहते हे ३०
राजाओंने हमारी जातवाले बहुतसे यादवोंको मारडाला है,
तदनन्तर श्रीकृष्णने विचारा, कि हम इस नगरमें रहकर बढ
नहीं सकते ॥ ३१ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्णने भागनेका विचार करके
भी उसके पास एक दूत भेजा पहले उन्होंने घड़ेमें एक बड़े भारी

स्वेन दूतेन हारयत् ॥ ३३ ॥ निदर्शनार्थं गोविन्दो भीषयापास
 सं वृषम् । स दूतः कालयवने दर्शयापास तं घटम् ॥ ३४ ॥ काल
 सर्पायः कृष्ण इत्युक्त्वा भरतर्षभ । तत्कालयवनो बुध्वा त्रासनं
 यादर्शः कृतम् ॥ ३५ ॥ पिपीलिकानां चण्डानां पूरयापास तं
 घटम् । स सर्पो बहुभिस्तीक्ष्णैः सर्वतस्तीः पिपीलिकैः ॥ ३६ ॥
 भञ्जयमाणः किलागेषु भस्मीभूतोऽगचत्तदा । तं मुद्रयित्वा तु घटं
 तथैव यचनाधिपः । प्रेषयामास कृष्णाय बाहुज्यमुपवर्णयन् ३७
 वासुदेवस्तु तं दृष्ट्वा योगं विहतमात्मनः । उत्सृज्य मथुरामाशु द्वार-
 कामभिगमिषान् ॥ ३८ ॥ वीरस्यान्तं विधित्सुस्तु वासुदेवो महा-
 यशाः । निवेश्य द्वारकां राजन् वृष्णीनाशवास्य चैव ह ॥ ३९ ॥

सर्पको डाला वह पिसे हुए अञ्जनकी समान काला था उसका
 धिप बड़ा तीक्ष्ण था उस सर्पको घड़ेमें डालकर श्रीकृष्णने
 बन्दरु और अपने दूतके हाथ कालयवनके पास भेज दिया ३३
 गोविन्दने उदाहरण देकर उस राजाको डराना चाहा था हे भर-
 तर्षभ ! दूतने श्रीकृष्ण काल सर्पकी सगान हैं यह कह कर वह
 घड़ा कालयवनको दिखलाया, तब कालयवनने समझा कि-
 यादव मुझे डराना चाहते हैं ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ अतः उसने मचण्ड
 चींटियोंके लेकर उस घड़ेमें भर दिया उन तीक्ष्ण चींटियोंने उस
 सर्पको चारों ओरसे काटना आरम्भ कर दिया तब तो उसके
 अङ्गमें बड़ी भारी पीड़ा होने लगी और वह भस्म होगया अर्थात्
 मरगया तदनन्तर यवनराजने उस घड़ेको वैसे ही मुँद दिया
 और हम बहुत हैं यह दिखानेके लिये श्रीकृष्णके पास भेज
 दिया ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ जब वासुदेवने देखा मेरा योग नष्ट
 होगया तब जल्दीसे ही मथुराको छोड़ कर द्वारकाको चले ३८
 महायशस्वी वासुदेवने वीरका अन्त करनेकी इच्छासे हे राजन्!
 द्वारकाको बसाकर वृष्णियोंको भी आशवासन दिया ॥ ३९ ॥

पदातिः पुरुषव्याघ्रो बाहुमहरणस्तदा । आजगाम महायोगी
मथुरां मधुसूदनः ॥ ४० ॥ तं दृष्ट्वा निर्ययौ हृष्टः स कालयवनो
रुषा । प्रज्ञापूर्वं च कृष्णोपि निश्चरुर्ष महाबलः ॥ ४१ ॥ अथान्व-
गच्छद्भोविन्दं जिघृक्षुर्गवनेश्वरः । न चैनगशकद्राजा गृहीतुं योग-
धर्मिणम् ॥ ४२ ॥ मांघ्रातुस्तु सुतो राजा मुचुकुन्दो महायशाः ।
पुरा देवासुरे युद्धे कृतकर्मा महाबलः ॥ ४३ ॥ वरेण द्यन्दितो
देवैर्निद्रामेव गृहीतवान् । श्रान्तस्य तस्य वागेवं तदा प्रादुरभूत्
किल ॥ ४४ ॥ प्रसुप्तं बोधयेद्यो मां तं दहेयमहं सुताः । चक्षुषा
क्रोधदीप्तेन एवमाह पुनः पुनः ॥ ४५ ॥ एवमस्त्विति तं शक
उवाच त्रिदशैः सह । स सुरैरभ्यनुज्ञातो लोकं मानुषभागमत् ४६
स पर्वतगुर्हा काचित् प्रविश्य श्रवकशितः । सुप्त्वाप कालमेतं दौ

इसके उपरान्त भुजाओंसे प्रहार करने वाले पुरुषव्याघ्र महा-
योगी मधुसूदन पैदल ही मथुरापुरीको चले आए ॥ ४० ॥
उनको देखकर कालयवन प्रसन्न हुआ और क्रोधमें भरकर
चला तदनन्तर महाबली श्रीकृष्ण भी उसको देखते हुए भागे
तब तो यवनराज श्रीकृष्णको पकड़नेके लिये उनके पीछेभाग
परन्तु श्रीकृष्ण योगधर्मको जानने वाले थे इसलिये राजा काल-
यवन उनको न पकड़ सका ॥ ४२ ॥ पहले मान्घ्राताका पुत्र राजा
मुचुकुन्द महायशस्वी था उस महाबलीने देवासुर युद्धमें काम
किया था ॥ ४३ ॥ देवताओंने उससे वर माँगनेको कहा, तब
उसने निद्राका वर माँगा जब वह श्रान्त होगया तब उसकी
बाणीमेंसे यह निकला ॥ ४४ ॥ हे देवताओं ! जो मुझे सोते
सोते जगादेय उसे मैं क्रोधमें भरी हुई आँखोंसे भस्म कर डालूँ
इस प्रकार उसने चाम्बवार कहा ॥ ४५ ॥ तब इन्द्रने और
देवताओंने उससे 'एवमस्तु' कहा था तब देवताओंकी आज्ञा
लेकर वह मनुष्यलोकको चला आया ॥ ४६ ॥ और पर्वतकी किसी

यावत् कृष्णस्य दर्शनम् ॥ ४७ ॥ तत् सर्वं वासुदेवाय नारदेन
 निवेदितम् । वरदानं च देवेभ्यस्तेजस्तस्य च भूपतेः ॥ १८ ॥
 कृष्णोऽनुगम्यमानश्च तेन म्लेच्छेन शत्रुणा । तां गुहां मृचु-
 कुन्दस्य प्रविशेश विनीतवत् ॥ ४६ ॥ शिरस्थाने तु राजर्षे-
 र्मुकुन्दस्य केशवः । सन्दर्शनपथं त्यक्त्वा तस्थौ बुद्धिमतां वरः ५०
 अनुमचिरय यवनो ददर्श पृथिवीपतिम् । स तं सुप्तं कृतान्ताभ-
 माससाद् मुदुर्मतिः ॥ ४१ ॥ वासुदेवं तु तं मत्वा घट्टयामास
 पार्थिवम् । पादेनात्मविनाशाय श्लभः पावकं यथा ॥ ५२ ॥
 मृचुकुन्दस्तु राजर्षिः पादस्पर्शप्रबोधितः । निद्राच्छेदेन चुक्रोश्च
 पादस्पर्शेन तेन च ॥ ५३ ॥ संस्मृत्य स वरं शक्रादगौक्षत तप-
 ग्रतः । स दृष्टमात्रः क्रोधेन संप्रजज्वाल सर्वशः ॥ ५४ ॥ ददाह

गुफा पर पहुँचा और श्रमसे कर्पिन होनेके कारण श्रीकृष्णका
 दर्शन होने तक गुफामें सोतारहा ४७ यह सब बात नारदजीने
 श्रीकृष्णसे कह दी थी और देवताओंका वरदान तथा उस राजा
 का तेज भी वर्णन कर दिया था १८ वह म्लेच्छ शत्रु श्रीकृष्ण
 के पीछे भाग रहा था उस समय श्रीकृष्ण विनीतकी समान
 मृचुकुन्दकी गुफामें घुस गए ४६ तब बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण
 दृष्टिमें न आसकें इस प्रकार राजर्षि मुचुकुन्दकी शिरकी ओर
 खड़े हो गए ५० तदनन्तर यवनराज भी तहाँ घुसा और उसने
 उस राजाको देखा और वह दुर्मति यमराजकी समान आभा वाले
 उस सोते हुए राजाके पास पहुँच गया ५१ फिर जैसे भुनगा
 अन्निके ऊपरको दौड़ता है तैसे ही उसने राजाको श्रीकृष्ण समझ
 कर अपने विनाशके लिये उसके लात मारी ५२ राजर्षि मुचु-
 कुन्द लात लगनेसे जग गया और विद्रा भङ्ग होनेसे तथा लात
 लगनेसे कोपमें भर गया ५३ उस समय उसने इन्द्रके वरका
 स्मरण करके सामने ही देखा राजा-मुचुकुन्दके क्रोधसे देखते ही

पावकस्तं तु शुष्कं वृक्षमिवाशनिः । क्षणेन कालयवनं नेत्रतेजो
 विनिर्गतः ॥ ५५ ॥ तं वासुदेवः श्रीमन्तं चिरसुप्तं नराधिपम् ।
 कृतकार्योऽब्रवीद्धीमानिदं वचनमुत्तमम् ॥ ५६ ॥ राजंश्चिरमसुप्तोऽसि
 कथितो नारदेन मे । कृतं मे सुमहत् कार्यं स्वस्ति तेऽस्तु ब्रजा
 म्यदम् ॥ ५७ ॥ वासुदेवमुपालक्ष्य राजा ह्रस्वं प्रपाणतः । परि-
 कृतं युगं मेने कालेन महता तदा ॥ ५८ ॥ उवाच राजा गोविंदं
 को भवान् किमिहागतः । कथं कालः प्रसुप्तस्य यदि जानासि
 कथ्यताम् ॥ ५९ ॥ श्रीकृष्ण उवाच । सोमवंशोद्भवो राजा
 ययातिर्नाम नाहुषः । तस्य पुत्रो यदुज्येष्ठश्चत्वारोऽन्ये यवीयसः ६०
 यदुवंशात् समुत्पन्नं वसुदेवात्मजं विभो । वासुदेवं विजानीहि
 नृपते स्वमिहागतम् ॥ ६१ ॥ त्रेतायुगे प्रसुप्तोऽसि विदितो मेऽसि

कालयवन चारों ओरसे जलने लगा ५४ जैसे सूखे हुए वृक्षको
 वज्र भस्म करदेता है इसी प्रकार नेत्रतेजरूपी अग्निने निकल
 कर कालयवनको क्षण भरमें ही भस्म कर दिया ५५ तदनन्तर
 बुद्धिमान् श्रीकृष्ण कृतकार्य होकर उस चिरकालसे सोने वाले
 श्रीमान् राजासे यह उत्तम वचन कहा, कि-५६ कि हे राजन्
 नारदजीने मुझसे कहा था, कि-आप बहुत समयसे सो रहे हैं
 आपने मेरा बड़ा भारी कार्य किया आपका कल्याण हो अब मैं
 जाता हूँ ५७ राजा मुचुकुन्दने श्रीकृष्णको छोटे कदका देखा इस
 समय उसने समझा, कि-बहुत समय बीत गया और युग बदल
 गया है ५८ उस समय राजाने गोविन्दसे कहा, कि-आप कौन
 हैं और यहाँ क्यों आ गए हैं अब यह कौन समय चल रहा है
 क्योंकि-मैं सो रहा था, यदि आप इस बातको जानते हों तो
 बताइये ५९ श्रीकृष्णने कहा, कि-नाहुषका पुत्र राजा ययाति
 सोम वंशमें उत्पन्न हुआ था यदु उसके बड़े पुत्र थे उसके और
 भी छोटे २ वार पुत्र थे ६० हे इन्द्रपते ! हे विभो ! आप मुझ

नारदात् । इदं कलियुगं विद्धि-किमन्यत् करवाणि ते ॥ ६२ ॥
 मम शशुस्त्वया दग्धो देवदत्तवरो नृप । अवधो यो गया संख्ये
 भवेद्दर्शशतैरपि ॥ ६३ ॥ वैशम्पायन उवाच । इत्युक्तः स तु
 कृष्णेन निर्जगाम गुहामुखात् । अन्वीयमानः कृष्णेन कृतकार्येण
 धीमता ॥६४॥ ततो ददर्श पृथिवीमावृतां ह्रस्वकर्मरैः । स्वल्पो
 रसाहंरूपवर्णरल्पवीर्यपराक्रमैः । परेणाधिष्ठितं चैव राज्यं
 केवलमात्मनः ॥ ६५ ॥ धीत्या विसृज्य गोविन्दं प्रविवेश महा-
 वनम् । हिमवन्तमगाद्राजा तपसे धृतमानसः ॥ ६६ ॥ ततः स
 तप आस्थाय विनिर्मुच्य क्लेशवाम् । आहरोह दिवं राजा कर्मभिः
 स्वैर्जिताशुभैः ॥६७॥ वासुदेवोपि धर्मात्मा उपायेन महामनाः ।

आए हुएको यदुवंशमें उत्पन्न हुआ वसुदेवपुत्र वासुदेव
 जानिये ६१ आप त्रेतायुगमें सोए थे यह बात मुझसे नारदजीने
 कही थी इस युगको आप कलियुग जानिये, वतलाइये मैं आपका
 और क्या कार्य कहूँ २ आपने मेरे शत्रुको भस्म कर दिया, उसको
 देवताओंने नर दिया था अतः मैं सैंकड़ों वर्षोंमें भी इसको युद्धमें
 नहीं गार सकता था ६३ वैशम्पायनजीने कहा, कि-श्रीकृष्णके
 इस प्रकार कहने पर वह गुफामें निकला और जिनका कार्य हो
 गया था ऐसे श्रीकृष्ण भी उसके पीछे २ चले ६४ तदनन्तर
 उसने देखा, कि पृथ्वीमें बहुत छोंटे २ मनुष्य हैं उनका उतराह
 भी अल्प है बल वीर्य तथा पराक्रम भी थोड़ा ही है और उसने
 देखा, कि उसके राज्य पर दूसरा आदमी बैठा है इस प्रकार
 उसने केवल अपने राज्यको ही देखा ॥ ६५ ॥ तब उसने
 गोविन्दको विदा कर दिया और महावनमेंको जाने लगा इस
 प्रकार अपने मनमें धैर्य धारण करने वाला वह राजा तप करने
 के लिये हिमाचल पर्वतको चला गया ॥ ६६ ॥ तदनन्तर उसने
 तप करके अपने शरीरको छोड़ दिया और अशुभ कर्मको जीतने

घातयित्वाऽऽत्मनः शत्रुं तत्सैन्यं प्रत्यपद्यत ॥ ६८ ॥ प्रभूतरथ-
हस्त्यश्ववर्मशस्त्रायुधध्वजम् । आदायोपययौ धीमान् ससैन्यं
निहतेश्वरम् ॥ ६९ ॥ निवेदयामास ततो नराधिपे तदुग्रसेने
प्रतिपूर्णमानसः । जनार्दनो द्वारवतीं च तां पुरीमशोभयत्तेन
धनेन भूरिणा ॥ ७० ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि कालयवन-
वधो नामसप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥

वैशम्पायन उवाच । ततः प्रभाते विमले भास्करे उदिते
तदा । कृतज्ञप्यो हृषीकेशो वनान्ते निपसाद ह ॥ १ ॥ परि-
चक्राम तं देशं दुर्गस्थानदिदृक्षया । उपतस्थुः कुलमाग्रया यादवा
यदुनन्दनम् ॥ २ ॥ रोहिण्यामहनि श्रेष्ठे स्वस्तिवाच्य द्विजोत्त-
मान् । पुण्यगृह्योर्पैत्रिपुलैर्दुर्गस्वारब्धवान् क्रियाम् ॥ ३ ॥ ततः

बाले अपने पूर्व कर्षोक के कारण वह राजा स्वर्गमें चढ़ गया ७७
इस प्रकार उदार मनवाले धर्मात्मा वासुदेव उपायके द्वारा अपने
शत्रुको नष्ट करके बहुतसे रथ, हाथी, घोड़े, कवच, शस्त्र, आयुध
और ध्वजावाली सेनामें पहुँच गए, और वह बुद्धिमान् जिसका
स्वामी मारा गया था ऐसी उस सेनाको लेकर चल दिये ६८-६९
तदनन्तर पूर्ण मनवाले जनार्दनने यह सब बात राजा उग्रसेनसे
निवेदन की और उस द्वारकापुरीको बड़े भारी धनसे सुशोभित
किया ॥ ७० ॥ सत्ताधनर्षो अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि- तदनन्तर जब विमल प्रभात होकर
सूर्य उदय होगया तब श्रीकृष्ण जप करके उस वनके पास बैठे १
फिर दुर्गस्थानको देखनेकी इच्छासे उस देशमें घूमने लगे २
सगग यदुनन्दन श्रीकृष्णके पास कुलमें उच्च यादव आगये २
तब श्रीकृष्णने ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर रोहिणी नक्षत्र
में पवित्र दिन बड़े भारी पुण्यगृह्योर्षोक के साथ दुर्गकी क्रियाका

पंकजपत्राक्षो यादवान् केशिसूदनः । गोत्राच वदनां श्रेष्ठो देवान्
 वृत्ररिपुर्यथा ॥ ४ ॥ कल्पितेयं मया भूमिः पश्य-वं देवसन्नवत् ।
 नाम चास्याः कृतं पुर्याः स्थाति यदुपयास्यति ॥५॥ इयं द्वार-
 वती नाम पृथिव्यां निर्मिता मया । भविष्यति पुरी रम्या शक्र-
 स्येवामरावती ॥ ६ ॥ तान्येवास्याः कारयिष्ये चिन्हान्यायत-
 नानि च । चत्वरान् राजमार्गाश्च समान्यन्तःपुराणि च ॥ ७ ॥
 देवा इवात्र गोदन्तु भवन्तो विगतज्वराः । बाधमाना रिपून्नुग्रानु-
 ग्रसेनपुरोगमाः ॥ ८ ॥ गृह्यन्तां चेशमवास्तूनि कल्प्यन्तां त्रिक-
 चत्तराः । मीयन्तां राजमार्गाश्च प्रासादस्य च या गतिः ॥९॥
 प्रेष्यन्तां शिल्पगुरुस्थानां युक्तानां वेशमकर्मसु । नियुज्यन्तां च
 आरम्भ क्रिया ॥ ३ ॥ वृत्रासुरका शत्रु इन्द्र जैसे देवताओंसे
 संभाषण करता है इसी प्रकार वक्ताओंमें श्रेष्ठ केशिनिपूदन
 कमलके पत्तेकी समान नेत्र वाले श्रीकृष्णने यादवोंसे बातचीत
 की कि-॥ ४ ॥ मैंने देवभवनकी समान इस भूमिको ठीक कर
 लिया है इसको तुम देखो और इस पुरीका जो नाम पसिद्ध
 होगा वह भी मैंने विचार लिया है, यह मेरी पृथ्वीमें बनाई हुई
 द्वारवती नाम वाली पुरी इन्द्रकी अमरावतीकी समान रमणीय
 होजावेगी ॥६॥ इस लिये ही मैं इसमें ऐसे ही चिन्ह और स्थान
 बनवाऊँगा और चौक राजमार्ग और समान अन्तःपुरोंको बन-
 वाऊँगा ॥ ७ ॥ अग्रसेन आदि आप लोभ अपने शत्रुओंको
 पीड़ा देते हुए इस पुरीमें देवताओंकी समान निश्चिन्त होकर
 आनन्द मनावें । ८ ॥ अब आप घर बनानेकी वस्तुएँ लें और
 जिसमें तीन वा चार तरफ हो दोनों ओर दूकानें चली जाएँ ऐसे
 ऐसे राजमार्ग बनाने चाहिये और महल बनाने चाहिये ९ और
 भवन बनाने वाले मूर्ख २ शिल्पियोंके पास उनको बुलानेके
 लिये आदिमियोंको भेजे और देश विदेशोंमें प्रेष्य कर्म करने वाले

देशेषु प्रेष्यकर्मकरा जनाः ॥ १० ॥ एवमुक्ते तु यदबो गृहसग्रह-
 तत्पराः । यथानिवेशं संहृष्टाश्चतुर्वास्तुपरिग्रहम् ॥ ११ ॥ सूत्र-
 हस्तास्ततो गानं चतुर्वादवसत्तमाः । पुण्येहनि महाराज द्विजाती-
 नमिपूज्य च ॥ १२ ॥ वास्तुदैवतकर्माणि विधिना कारयन्ति
 च । स्थपतीनथ गोचिन्दमन्त्रोवाच महापतिः ॥ १३ ॥ अस्म-
 दर्थं सुविहितं क्रियतामत्र मन्दिरम् । विविक्तचत्वरपथं सुनि-
 विष्टेष्टदैवतम् ॥ १४ ॥ ते तथेति महाबाहुमुक्त्वा स्थपतयस्तदा ।
 दुर्गकर्माणि संस्कारानुपकल्प्य यथाविधि ॥ १५ ॥ यथान्यायं
 निर्मितिरे दुर्गाण्यायतनानि च । स्थानानि निदधुश्चात्र ब्रह्मा
 दीनां यथाक्रमम् ॥ १६ ॥ अपापग्नेः सुरेशस्य दृषदोलूखलस्य
 च । चातुर्देवानि चत्वारि द्वाराणि निदधुश्च ते ॥ १७ ॥ शुद्धात्त-

मनुष्योंको अर्थात् एलचियोंको नियुक्त कर दो ॥ १० ॥ इस
 प्रकार कहने पर यादवोंने चरकी बन्धुओंका संग्रह करना आरंभ
 कर दिया और प्रसन्न होकर स्थान २ पर घर बनानेके लिये
 संग्रह करने लगे ॥ ११ ॥ तदनन्तर हे महाराज ! इस प्रकार
 पुण्यादिनमें द्विजातियोंका पूजन करके श्रेष्ठ २ यादवोंने अपने हाथ
 में सूत्र लेकर नापना आरम्भ कर दिया, ॥ १२ ॥ वे वास्तु-
 दैवत कर्मकी विधि विधानसे कराने लगे, उस समय महाशुद्धि-
 मान श्रीकृष्णने चाम्नु कर्मकी जानने वाले सूत्रधारोंसे कहा,
 कि-॥ १३ ॥ हमारे लिये यहाँ पर बड़ा अच्छा भवन बनाओ
 उसका मार्ग बहुत खुलासा हो और उरगों इष्ट देवताकी मूर्तियों
 स्थापित करो ॥ १४ ॥ तब उन सूत्रधारोंने उन महाशुभसे
 तथास्तु कहा, फिर-दुर्ग कर्मके संस्कारोंको यथाविधि ठीक
 करके १५ शास्त्रानुसार दुर्ग भवन और स्थानोंको बनाने लगे
 और तहाँ पर उन्हींने ब्रह्माजी आदिके स्थानभी क्रमानुसार बनाये
 गले, अग्नि, सुरेश परधर और उलूखलके भी स्थान बनाये,

मैंद्रं भल्लाटं पुष्पदंतं तथैव च । तेषु वैश्वस्य युक्तेषु यादवेषु
 महान्गस्य ॥ १८ ॥ पुर्याः त्रिषं निवेशार्थं चिन्तयामास माधवः ।
 तस्य देवान्धिता बुद्धिर्निगला त्रिषकारिणी ॥ १९ ॥ पुर्याः प्रिय
 करी सा वा गदूनामभिर्बर्धिनी । शिल्पिमुख्यस्तु देवानां प्रजा-
 पतिमुतः प्रभो ॥ २० ॥ विश्वकर्मास्य सामर्थ्यात् पुरीं संस्थाप-
 तिष्यति । मनसा सगनुध्याय नस्थापनकारणात् । त्रिदशाभि-
 मुखः कृष्णो विवेक्ते सगद्यत ॥ २१ ॥ तस्मिन्नेव ततः काले
 शिल्पाचार्यो महापतिः । विश्वकर्मा सुरश्रेष्ठः कृष्णस्य प्रमुखे
 स्थितः ॥ २२ ॥ विश्वकर्मावाच । शक्येण प्रेषितः त्रिषं तव
 विष्णो धृतव्रत । किंकरः सगनुभासः शाधि मां किंकरोमि ते २३
 यथाऽसी देवदेवो मे शंकरश्च यथाऽव्ययः । तथा त्वं देवमान्यो

और (शुद्धात्त आदि चारदेवताओंके चार दरवाजे बनाए १७
 (उनके नाम इस प्रकार हैं) शुद्धात्त, ऐन्द्र, भल्लाट और पुष्प-
 दन्त जब महात्मा यादव इन भवनों (को बनाने)में भली प्रकार
 लग गए ॥ १८ ॥ उस समय माधवने पुरीको शीघ्रतासे बनाने
 के लिये विचार किया, तब उनकी शीघ्रता करने वाली विमल
 बुद्धि देवसे गफट हुई ॥ १९ ॥ वह पुरीका प्रिय करने वाली और
 यादवोंको बढाने वाली थी कि-देवताओंके शिल्पियोंमें मुख्य
 प्रजापतिके पुत्र प्रभु विश्वकर्मा अपनी सामर्थ्यसे इस पुरीको
 बना सकेंगे इसलिये उन्होंने अपने मनमें उनको बुलानेका
 विचार किया इस प्रकार श्रीकृष्ण एकान्तमें देवताओंकी ओर
 अभिमुख हुए ॥ २० ॥ २१ ॥ उसी समय महाबुद्धिमान देवताओं
 में श्रेष्ठ शिल्पाचार्य विश्वकर्मा श्रीकृष्णके "सागने आकर खड़े
 होगये ॥ २२ ॥ विश्वकर्माने कहा, कि-हे विष्णो ! हे धृतव्रत !
 मुझे इन्द्रने शीघ्रतासे भेजा है, मैं आपका किंकर आपके पास
 आगया हूँ याप मुझे आज्ञा दीजिये, वताइए मैं आपका क्या

मे विशेषो नास्ति वः प्रभो ॥ २४ ॥ त्रैलोक्यज्ञापिकां वाच-
 मुत्सृजस्व महाभुज । एषोऽस्मि परिदृष्टार्थः किं करागि प्रशाधि
 माम् ॥ २५ ॥ श्रुत्वा विनीतं वचनं केशवो विश्वकर्मणः । प्रत्यु-
 वाच यदुश्रेष्ठः कसारिरतुलं वचः ॥ २६ ॥ श्रुतार्थो देवगृह्यस्य
 भवान् यत्र वयं स्थिताः । अवश्यं निवह कर्तव्यं सदनं मे सुरो-
 त्तम ॥ २७ ॥ तदियं पूः प्रकाशार्थं निवेश्या मयि सुव्रत । मत्प्रभा-
 वानुरूपैश्च गृहैश्चैयं समन्ततः ॥ २८ ॥ उत्तमा च पृथिव्यां नौ
 यथा स्वर्गोऽमरावती । तथेयं हि त्वया कार्या शक्तो ह्यसि महा-
 मते ॥ २९ ॥ मम स्थानगिदं कार्यं यथा नौ त्रिदिवे तथा । मर्त्याः
 परयन्तु मे लक्ष्मीं पुर्या यदुकुलस्य च ॥ ३० ॥ एवमुक्तस्तनः

काम करूँ ॥ २३ ॥ जैसे मैं देवदेव शंकरको तथा अव्यय ब्रह्माजी
 को मान्य समझता हूँ इसी प्रकार हे देव ! मैं आपके भी मान्य
 समझता हूँ और हे प्रभो ! मैं आप सबमें कुछ भेद नहीं
 समझता ॥ २४ ॥ हे महाभुज ! आप अपनी त्रिलोकीको जताने
 वाली बाणीका उच्चारण करिये सब कागदो करने वाला मैं
 आपके पास खड़ा हूँ आज्ञा दीजिये मैं क्या करूँ ॥ २५ ॥
 कंसके शत्रु यादवोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णने विश्वकर्माके विनीत वचन
 को सुनकर अनुपम वचन कहा, कि—॥ २६ ॥ आपने देवताओं
 की गुप्त बात सुनी है हे सुरोत्तमानहां पर हम और आप खड़े
 हुए हैं तहां पर मेरा एक मकान अवश्य बनाइये ॥ २७ ॥
 हे सुव्रत ! मेरा प्रकाश करनेके लिये मेरे प्रभावके अनुकूल चारों
 ओर घर बनाकर इस पुरीको बनाइये गढ़ नगरी पृथिवीमें ऐसी
 उत्तम हो जैसी कि-स्वर्गमें अमरावती है हे महामते ! आप जितना
 काम करसकते हैं उतना काम करके इस पुरीको बनाइये २९
 मेरे इस स्थानको स्वर्गके स्थानकी समान बनाइये जिससे कि
 मनुष्य यदुकुलकी और उम पुरीकी और मेरी शोभा को देखें, जब

प्राह विश्वकर्मा मतीश्वरः । कृष्णमविलष्टकर्माणं देवामित्रविगा
 शनम् ॥ ३१ ॥ सर्वमेतत् करिष्यामि यत्त्वयाऽभिहितं प्रभो ।
 पुरी त्वयं जनस्यास्य न पर्याप्ता भविष्यति ॥ ३२ ॥ भविष्यति
 च विस्तीर्णा वृद्धिरस्याः सुशोभना । चत्वारः सागरा ह्यस्यां
 विचरिष्यन्ति रूपिणः ॥ ३३ ॥ यदीच्छेत् सागरः किञ्चिदुत्सप्लु-
 मपि तोयराट् । ततः स्वायतलक्षण्या पुरी स्यात् पुरुषोत्तम ३४
 एवमुक्तस्ततः कृष्णः प्रागेव कृतनिश्चयः । सागरं सरितां नाथ-
 मुवाच वदता वरः ॥ ३५ ॥ समुद्र दश च द्वे च योजनानि जला-
 शये । प्रतिसंहियमात्मानं यद्यस्ति मयि मान्यता ॥ ३६ ॥ अ-
 काशे त्वया दत्ते पुरीयं मामकं बलम् । पर्याप्तविषया रम्या
 समग्रं विसद्विष्यति ॥ ३७ ॥ ततः कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा नद-

इस प्रकार कहा तब बुद्धिमानोंके स्वामी विश्वकर्माने सरलतासे
 कर्म करने वाले देवशत्रुविनाशक श्रीकृष्णसे कहा, कि-३०-३१
 हे प्रभो ! आपने जो कुछ कहा, उसीके अनुसार मैं सब कुछ
 करनेको तयार हूँ परन्तु यह नगरी इन मनुष्योंके लिये काफी नहीं
 होगी यह बहुत विस्तीर्ण होगी इसकी बढौतरी शोभन होगी इस
 में चारों समुद्र रूप धारण करके विचरें ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ यदि
 जलके राजा समुद्र कुछ स्थान छोड़नेकी इच्छा करें तो हे पुरुषो-
 त्तम ! यह पुरी लम्बी चौड़ी बनाई जासकती है ॥ ३४ ॥
 श्रीकृष्णने तो इस बातका पहिले ही निश्चय कर लिया था अब
 विश्वकर्माके इस प्रकार कहने पर वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णने
 नद नदियोंके स्वामी समुद्रसे कहा, कि-३५ हे समुद्र ! यदि तुम
 मुझे कुछ मान्य समझते हो तो तुम अपने जलाशयमेंसे अड़तालीस
 कोसकी जगह मुझे छोड़ दो ॥ ३६ ॥ आपके अक्काश देने पर
 यह पुरी मेरे समग्र सेनादलको सह लेगी और पर्याप्त होगी तथा
 रमणीय होगी ॥ ३७ तदनन्तर श्रीकृष्णके वचनको सुन कर

नदीपतिः । स मास्तेन योगेन उत्ससर्ज जलाशयम् ॥ ३८ ॥
 विश्वकर्मा ततः प्रीतः पुर्वाः संलक्ष्य वास्तु तत् । गोविन्दे
 चैव सन्मानं कृतवान् सागरस्तदा ॥ ३९ ॥ विश्वकर्मा ततः कृष्ण-
 मुवाच यदुनन्दनम् । अत्र भवति गोविन्द सर्वे समाधिरोहन ४०
 मनसा निर्मिता चेयं मया पूः प्रवरा विभो । अचिरेणैव कालेन
 गृहसम्वाधमालिनी ॥ ४१ ॥ भविष्यति पुरी रम्भा सुद्वारा
 प्राग्रयतोरणा । चयाट्टालककेयूग पृथिव्यां ककुद्गोपमा ॥ ४२ ॥
 अन्तःपुरं च कृष्णस्य परिवर्षान्तयं गहत् । चकार तस्यां पुर्यां
 वै देशे त्रिदशपूजिते ॥ ४३ ॥ ततः सा निर्मिता कान्ता पुरी
 द्वारावती नदा । मानसेन प्रयत्नेन वीष्णवी विश्वकर्मणा ॥ ४४ ॥
 विश्वान्विहितद्वारा पाकारवरशोभिता । परिखाचयसंयुक्ता साट्ट-

नद और नदियोंके स्वामी समुद्रने गारुतयोगसे जलाशयको
 छोड़ दिया ॥ ३८ ॥ तब नगरके बनानेकी जगहको देख कर
 विश्वकर्मा प्रसन्न हुए जब समुद्रने गोविन्दका सत्कार किया ३९
 तब विश्वकर्माने यदुनन्दन श्रीकृष्णसे कहा, कि-हे गोविन्द !
 आजसे आप सब इसमें रहिये ॥ ४० ॥ हे विभो ! मैंने इस श्रेष्ठ
 पुरीको अपने मनमें रच लिया है धाड़े ही समयमें यह रमणीय
 पुरी बस जावेगी इसमें बहुतमे घर होंगे इसके द्वार बड़े अच्छे
 होंगे इसकी बंदनमालिकाभी श्रेष्ठ होगी इसमें ऊँची २ अट्टा-
 लिकाएँ केयूर-रूप होंगी और यह पृथिवीमें ककुदकी समान
 मानी-जावेगी ४१ ४२ गदनन्तर विश्वकर्माने श्रीकृष्णका अन्तः-
 पुर बनाया उसमें बड़ाभारी स्नानघरभी बनाया उस देवनाओं
 से पूजित देशकी पुरीमें (इस प्रकार सब) बनाया ४३ इस
 प्रकार विश्वकर्माने मानस प्रयत्नसे रमणीय द्वारावती वीष्णवी-
 पुरी बनाई ४४ उसके द्वार शास्त्रानुसार बनाये और वह श्रेष्ठ ८
 पक्षेटोंसे शोभा में लगी बहुतसी खाडयें उसकी रक्षा कर

प्रकारतेरणा ॥४५॥ कान्तनारीनरगणा वणिग्भिरुपशोभिता ।
 नानापण्यगणाकीर्णा खेचरीव च गां गता ॥ ४६ ॥ प्रपावापी-
 प्रसन्नोदा उद्यानीरुपशोभिता । समन्ततः संवृताङ्गी वनितेवाय-
 तेक्षणा ॥ ४७ ॥ समृद्धचत्वरवती वेश्मोत्तमयनाचिता । स्थया-
 कोटिसहस्राद्या शुभ्रराजपयोत्तरा ॥ ४८ ॥ भूपयन्ती समुद्र-
 सा स्वर्गमिन्द्रपुरी यथा । पृथिव्यां सर्वरत्नानामेकानिचयशा-
 लिनी ॥ ४९ ॥ सुराणामपि सुतेत्रा सामन्तज्ञोभकारिणी । अप-
 काशं तदाऽऽकाशं प्रासादैरुपकुर्वती ॥५०॥ पृथिव्यां पृथुराष्ट्राणां
 जनौयमतिनादिता । प्रोषैश्च वारिराजस्य शिशिरीकृतमारुताः १

ने लगी बहुतसे ऊँचे परकोटे और तोरण उसमें लग गए ४५
 उसमें बहुतसे मनोहर नरनारी रहने लगे और वह पुरी बनियों
 से शोभा पाने लगी और वह अनेक प्रकारकी दूकानोंसे छा गई
 इस प्रकार वह पृथिवीमें आई हुई आकाशचारिणीसी मालूम
 पड़ती थी ॥ ४६ ॥ उसकी बावड़ी और पौओंमें निर्मल नल
 रहता था और चारों ओर वगीचे खिल रहे थे इस प्रकार चारों
 ओरमे ढकी हुई वह पुरी निगाल नेत्रों वाली रमणीकी समान
 मालूम पड़ती थी ॥ ४७ ॥ उसके चौक वड़े समृद्धिशाली थे
 उसके उत्तम २ महलों पर बादल छाये रहते थे उसमें करोड़ों
 गल्लिये थीं और उसका राजपथ आगेको शुभ्र होता हुआ चला
 गया था ॥ ४८ ॥ जैसे इंद्रपुरी स्वर्गको सुशोभित करती है इसी
 प्रकार वह समुद्रको सुशोभित कर रही थी इस प्रकार वह समृद्धि-
 मती नगरी पृथिवीके सब रत्नोंमें एक रत्न मतीत होती थी ४९
 तहाँ पर देवताओंके पवित्र मन्दिर थे वह साँगतीको चुम्ब करने
 वाली थी और अपने भवनोंसे आकाशको प्रकाशरहित बना
 रही थी ॥ ५० ॥ अनेक राष्ट्रों वाली पृथिवीमें वह (नगरी)
 मनुष्योंके शब्दसे प्रतिध्वनित रहने लगी और वारिराज समुद्रकी

अनूपोपवर्णैः कान्तैः कान्त्या जनमनोहरा । सतारका धौरिव
सा द्वारका गत्यराजत ॥ ५२ ॥ प्राकारेणार्कवर्णेन शातकौभेन
सम्भृता । हिरण्यप्रतिवर्णेश्च गृहैर्गभीरनिःस्वर्णैः ॥ ५३ ॥ शुभ्र-
मेघप्रतीकाशैर्द्वारैः सौधैश्च शोभिता । ववचित्ववचिदुदग्राग्रैरुपा-
वृतमहापया ॥ ५४ ॥ तामावसत्पुरीं कृष्ण सर्वे यादवनन्दनाः ।
अग्निमेतजनाकीर्णा सोमः स्वमिव भासयन् ॥ ५५ ॥ विश्वकर्मा
च तां कृत्वा पुरीं शकपुरीमिव । जगाम त्रिदिवं देवो गोविन्दे-
नाभिपूजितः ॥ ५६ ॥ भूयश्च बुद्धिर्भवत् कृष्णस्य विदिता-
त्मनः । जनानिगान्धर्नोवैश्च तर्पयगहं यदि ॥ ५७ ॥ स
वैश्रवणसंसृष्टं निधीनामुत्तमं निधिम् । शंखगाह्यतोपेंद्रो निशि

लहर्गोमे तहोंकी पवन शिशिर ऋतुकीसी रहनी थी ॥ ५१ ॥
अनूपके मनोहर वगीचोंकी कान्तिसे वह नगरा मनुष्योंके चित्त
को हरने लगी इस प्रकार वह द्वारकापुरी नन्नत्रों वाले आकाश
की समान शोभा पाने लगी ॥ ५२ ॥ सुवर्णकी बना हुआ पर-
कोटा तहों सूर्यके वर्णकी समान दमक रहा था, उससे वह नगरी
घिरी हुई थी, गम्भीर ध्वनि करने वाले सुवर्णकी समान घर
तहों बन रहे थे ॥ ५३ ॥ शुभ्र मेघकी समान द्वारोंसे और भवनों
से वह पुरी शोभा पारही थी, कहीं २ पर उस नगरीकी ऊँची २
अट्टालिकाओंकी छायासे महागध ढका रहना था ॥ ५४ ॥ जिस
प्रकार चन्द्रमा आकाशको शोभा देता है, इसी प्रकार श्रीकृष्ण
और सब यादव भी उस उष्ट मनुष्योंसे घिरी हुई द्वारकापुरीमें
रहते थे ॥ ५५ ॥ विश्वकर्माने उस पुरीको इस प्रकार इन्द्रकी
पुरीकी समान बना दिया, तदनन्तर गोविन्दने उनकी पूजा की
और वह स्वर्गको चले गए ॥ ५६ ॥ विदिनात्मा श्रीकृष्णकी
फिर यह विचार उठा, कि-मैं इन मनुष्योंको धनमे तृप्त करूँ ५७
तदनन्तर मनु उपेन्द्रने रात्रिके समय अपने भवनमें कुंठरके पास

स्वे भवने मधुः ॥ ५८ ॥ स शंखः केशवाहानं ज्ञात्वा हि निधि-
 राट् स्वयम् । आजगाम समीपं वै तस्य द्वारवतीपतेः ॥ ५९ ॥
 स शम्बः प्राञ्जलिभूर्त्वा विनयादवनिं गतः । कृप्यं विज्ञापया-
 मास यथा वैश्रवणं तथा ॥ ६० ॥ भगवन् किं मया कार्यं
 सुगणां वित्तरक्षिणा । नियोजय महाबाहो यत्कार्यं यदुनन्दन ६१
 तमुवाच हृषीकेशः शंखं गुह्यकमुत्तमम् । जनाः कृशधना येस्मि-
 स्तान्धनैनागिपूरय ॥ ६२ ॥ नेच्छाम्यनशितं द्रष्टुं कृशं मलिन-
 मेन च । देहीति चैव याचन्तं नगर्या निर्धनं नरम् ॥ ६३ ॥
 वैशम्पायन उवाच । गृहीत्वा शासनं मूर्ध्ना निधिराट् केशवस्य
 ह । निधीनाज्ञापयामास द्वारवत्यां गृहे गृहे ॥ ६४ ॥ धनौघैरभि-
 वर्ण-वं चक्रुः सर्वे तथा च ते । नाधनो विश्यते तत्र क्षीण-
 भागोपि वा नरः ॥ ६५ ॥ कृशो वा मलिनो चापि द्वारवत्यां

रहने वाले निधियोमें उत्तम शंखनिधिके बुलाया । ५८ ॥ निधि-
 राज शंख श्रीकृष्णके आह्वानको जान कर द्वारकापुरीके पास
 अपने आप ही चला आया ॥ ५९ ॥ और उस शखनिधिने हाथ
 जोड़ कर विनय-पूर्वक पृथ्वीमें प्रणाम किया और कुवेरकी
 समान श्रीकृष्णसे आज्ञा देनेको कहने लगा ॥ ६० ॥ हे भगवन् !
 मैं देवताओंके धनका रक्षक हूँ मुझे क्या करना चाहिये, हे महा-
 भुज यदुनन्दन ! उसकी मुझे आज्ञा दीजिये ॥ ६१ ॥ तब हृषी-
 केशने उस उत्तम शंखसे कहा, कि-यहाँ पर जिनके पास धन
 कम है, उनको ज्ञापनमे पूरा करिये ॥ ६२ ॥ क्योंकि मैं इस
 पुरीमें ऐसे किसी मनुष्यको नहीं देखना चाहना जो भूगा दुबला
 अथवा दे देा कहने वाला निर्धन हो ॥ ६३ ॥ वैशम्पायनजीने
 कहा, कि-निधिराजने केशवके शासनको अपने मस्तक पर ग्रहण
 कर निधिगोंने आज्ञा दी, कि-तुम द्वारकाके मत्येक घरमें धनकी
 वीक्षार करो, तब उन निधिगोंने ऐसा ही किया, इस लिये तब

कथञ्चन । द्वारवत्यां पुरि पुरा केशवस्य महात्मनः ॥ ६६ ॥
 चकार वायोराहानं भूपश्च पुरुषोत्तमः । तत्रस्थ एव भगवान्
 यादवानां प्रियंकरः ॥ ६७ ॥ प्राणयोनिस्तु भूतानामुपतस्थे
 गदाधरम् । एकमासीनमेकान्ते देवगुह्यधरं प्रभुम् ॥ ६८ ॥ किं
 मया देव कर्तव्यं सर्वगेनाशुगाणिना । यथैव दूतो देवानां तथैवा-
 स्मि तवानघ ॥ ६९ ॥ तमुवाच ततः कृष्णो रहस्यं पुरुषो हरिः ।
 मान्तं जगतः प्राणं रूपिणं समुपस्थितम् ॥ ७० ॥ गच्छ मास्तु
 देवेशमनुमान्य सहापरैः । सभां सुधर्मापादाय देवेभ्यस्त्वमिहा-
 नय ॥ ७१ ॥ यादवा धार्मिका ह्येते विक्रान्ताश्च सहस्रशः । तस्यां
 निशेपुरेते वै न तु या कृत्रिमा भवेत् ॥ ७२ ॥ या ह्यज्ञया सभा
 रम्या कामगा कामरूपिणी । सा यदन्धारयेत् सर्वान् यथैव

पर कोई निर्धन वा नीलभाग्य पुरुष न रहा ॥ ६४ ॥ ६५ ॥
 महात्मा केशवकी द्वारकापुरीमें कोई कृश वा मलिन पुरुष न
 रहा ॥ ६६ ॥ यादवोंका प्रिय करने वाले पुरुषोत्तम भगवान्ने
 तहाँ पर बैठे २ फिर वायुको आह्वान करनेका विचार किया ६७
 तब देवताओंके गुह्य बातोंलापको धारण करने वाले एकान्तमें
 बैठे हुए प्रभु गदाधरके पास भूतोंके प्राणोंकी योनि वायुदेव आ
 गए ६८ (उन्होंने कहा कि—) हे देव ! मैं शीघ्रतासे चलने
 वाला हूँ और सभमें जासकता हूँ वताइये, मैं क्या करूँ, हे अनघ !
 मैं जैसे देवताओंका दूत हूँ, तैसे ही आपका भी दूत हूँ ६९ तब
 पुरुषहरिने जगत्के प्राणरूप रूप धारण कर उपस्थित हुए वायु
 से एकान्तमें कहा, कि-७० हे मास्तु ! तू जा और इन्द्र तथा
 देवताओंके प्रसन्न कर देवताओंसे सुधर्मा नामकी सभा लेकर
 यहाँ आ जा ७१ ये सहस्रों पराक्रमी और धार्मिक यादव उस
 सभामें प्रवेश करें परन्तु वह सभा वनावटी न होनी चाहिये ७२
 जो सभा अज्ञय रमणीय इच्छानुसार विचरण करने वाली और

हरान्स्थविरान्दश तत्र वै । मतिमान् स्थापयामास सर्वकार्येष्व-
न्तरान् ॥ ८१ ॥ रथेष्वतिरथो यन्ता दारुकः केशवस्य वै ।
पोधमुख्यश्च योधानां प्रवरस्सात्यकिः कृतः ॥ ८२ ॥ विधान-
मेवं कृत्वाथ कृष्णः पुर्यामनिन्दितः । मुमुदे यदुभिस्सार्द्धं लोक-
स्रष्टा महीतले ॥ ८३ ॥ रेवतस्याथ कन्यां च रेवतीं शीलसंम-
ताम् । प्राप्तवान् बलदेवस्तु कृष्णस्यानुमते तदा ॥ ८४ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि द्वारावती
निर्माणं नामाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥

वैशम्पायन उवाच । एतस्मिन्नेव काले तु जरामन्थः प्रताप-
वान् । नृपानुद्योजयामास चेदिराजप्रियेत्सया ॥ १ ॥ सुताया
भीष्मकस्याथ रुक्मिण्या रुक्मभूपणः । शिशुपालस्य नृपतेर्विवाहो
भविता किल ॥ २ ॥ दन्तवक्रस्य तनयं सुवक्रममितौजसम् ।
सहस्रान्तसमं पुढे मायाशतविशारदम् ॥ ३ ॥ पौण्ड्रस्य वासु-

सम्पति देने वाले बना कर बुद्धिमान् श्रीकृष्णने स्थापित कर
दिया ७६—८१ रथोंमें अतिरथी दारुक वेशवका सारथी बना,
और श्रीकृष्णने योधाओंमें मुख्य सात्यकिकी योधाओंमें श्रेष्ठ
बनाया=रलोकोंके रचने वाले अनिन्दित श्रीकृष्ण अपनी पुरीमें
इस प्रकारका विधान करके यादवोंके साथ पृथ्वीतलमें भानन्द
करने लगे=इतदनन्तर श्रीकृष्णजीकी सम्पतिसे बलदेवजीने रेवत
की शील संपन्न कन्या रेवतीसे विवाह किया ८४ अट्ठावनवाँ
अध्याय समाप्त ५८

वैशम्पायनजीने कहा, कि-इसी समय प्रतापी जरामन्थने
चेदिराजका प्रिय करनेकी इच्छासे अर्थात् दमघोषके प्रिय पुत्र
शिशुपालके विवाह करनेकी इच्छासे राजाओंके तयार किया ?
कि-भीष्मककी पुत्री रुक्मिणीका राजा शिशुपालके साथ सुवर्ण
के आभरणोंसे विवाह होगा ॥ २ ॥ दन्तवक्र--के पत्र सैंतहों

देवस्य तथा पुत्रं महाबलम् । सुदेवं वीर्यसम्पन्नं पृथगक्षौहिणी-
पतिम् ॥ ४ ॥ एकलव्यस्य पुत्रं च वीर्यवन्तं महाबलम् । पुत्रं
च पाण्डुराजस्य कलिङ्गाधिपतिं तथा ॥ ५ ॥ कृताग्रियं च
कृष्णेन वेणुदारिं नराधिपम् । अंशुमन्तं तथा क्राथं श्रुतधर्माण-
मेव च ॥ ६ ॥ निवृत्तशत्रुं कालिङ्ग गान्धाराधिपतिं तथा । मसद्य
च महावीर्यं कौशाम्ब्यधिपमेव च ॥ ७ ॥ भगदत्तो महासेन-
रशलशाल्वो महाबलः । भूरिश्रवा महासेनः कुन्तिवीर्यश्च वीर्य-
वान् । स्वयम्बरार्थं सम्प्राप्ता भोजराजनिवेशने ॥ ८ ॥ जनमे-
जय उवाच । कस्मिन्देशे तृपो जज्ञे रुक्मी वेदविदां वरः । कस्या-
न्ववाये द्युतिमान् सम्भूतो द्विजसत्तम ॥ ९ ॥ वैशम्पायन उवाच ।
राजर्षेर्वादेवस्यासीद्विदर्भो नाम वै सुतः । विन्ध्यस्य दन्तिष्ठे
पार्श्वे विदर्भायां न्यवेशयत् ॥ १० ॥ क्रथकैशिकमुख्यास्तु पुत्रा-

माणा करनेमें चतुर युद्धमें इन्द्रकी समान अमित पराक्रमी सुवक्र
को और अक्षौहिणी सेनाके स्वामी पाण्डु वासुदेवके महाबली
पुत्र वीर्यवान् सुदेवको एकलव्यके वीर्यवान् पुत्र महाबलको
और पाण्डुराजके पुत्रको तथा कलिङ्गराजको तथा श्रीकृष्णने
जिसका अप्रिय किया था उस राजा वेणुदारिको अंशुमान्को
क्राथको तथा श्रुतधर्माको और जिसने शत्रुओंको कील दिया था
ऐसे कालिङ्गके और गान्धारदेशके स्वामीरो और महाबल
वान् कौशाम्ब्यके राजाको जोर डालकर (बुलवाया) ॥ ३ ७ ॥
और भोजराजके घरमें भगदत्त महासेन शल महाबली शान्व
वड़ीभारी सेनावाले भूरिश्रवा और वीर्यवान् कुन्तिवीर्य यह सब
स्वयम्बरके लिये आए ॥ ८ ॥ जनमेजयने कहा, कि-हे श्रेष्ठ
ब्राह्मण ! वेदवेदाओंमें श्रेष्ठ कान्तिवान् राजा रुक्मी किस देशमें
और किस वंशमें उत्पन्न हुआ था ॥ ९ ॥ वैशम्पायनजीने
कहा, राजर्षि यादवके विदर्भ नामक पुत्र था उसने विन्ध्याचल

स्तस्य महावलाः । वधुवुर्वीर्यसम्पन्नाः पृथग्वंशकरा नृपाः ११
 तस्यान्ववाये भीमस्य जज्ञिरे वृष्णयो नृपाः । क्रथस्य त्वंशुमान्
 वंशे भीष्मकः कैशिकस्य तु ॥१२॥ हिरण्यरोमेत्याहुर् दान्तिणा-
 त्येश्वर नृपाः । अगस्त्यमुत्तामाशां यः कुण्डिनस्थोन्वशान्नृपः १३
 रुक्मी तस्याभवत्पुत्रो रुक्मिणी च विशाम्पते । रुक्मी चास्त्राणि
 दिव्यानि द्रुमात्प्राप महावलः ॥ १४ ॥ जामदग्न्यात्तथा रामा-
 द्वाह्यमस्त्रमवाप्तवान् । प्रास्पृद्धत सकृष्णेन नित्यमद्भुतकर्मणा १५
 रुक्मिणी त्वभवद्राजन् रूपेणासदृशी भुवि । चकमे वासुदेवस्तां
 श्रवादेव महाद्युतिः ॥१६॥ स तथा चाभिलाषितश्रवादेव जना-
 र्दनः । तेजोवीर्यवलोपेतस्स मे भर्ता भवेदिति ॥ १७ ॥ तां ददौ

के दाहिनी ओर विदर्भ नगरीको बसाया था ॥ १० ॥ उसके
 क्रथ कैशिक आदि महावली पुत्र उत्पन्न हुए उन वीर्यवान्
 राजाओंने अपने वंश अलग २ चलाए ॥ ११ ॥ राजा भीमके
 वंशमें वृष्णिवंशी राजे उत्पन्न हुए हैं क्रथके वंशमें अंशुमान्
 हुआ और कैशिकके भीष्मक हुआ ॥ १२ ॥ राजा उस दान्ति-
 णात्य देशके स्वामीको हिरण्यरोमा भी कहते हैं, वह राजा
 कुण्डिनपुरसे ही अगस्त्यजीसे रक्षित दान्तिण दिशाका शासन
 करता है ॥ १३ ॥ उसके रुक्म नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है
 और हे राजन् ! रुक्मिणी नामकी पुत्री भी उत्पन्न हुई है,
 महावली रुक्मीने द्रुमसे दिव्य अस्त्र सीख लिये हैं ॥१४॥ और
 जमदग्नि पुत्र परशुरामजीसे ब्रह्मास्त्र भी प्राप्त करलिया है अब
 वह अद्भुत कर्म करने वाले श्रीकृष्णसे स्पर्धा करता है ॥ १५ ॥
 हे राजन् ! रुक्मिणी पृथ्वीमें अनुपम रूपवती है महाकान्तिमान्
 वासुदेव इस बातको सुन कर ही उसको अभिलाषा करने लगे
 थे ॥ १६ ॥ और वह भी सुननेसे ही जनार्दन श्रीकृष्णकी
 अभिलाषा करने लगी है, (और वह चाहती है, कि-)तेज वीर्य

न च कृष्णाय द्वेगाद्रुक्मी महाबलः । कंसस्य वधसन्तापात् कृष्णा-
यामिततेजसे । याचमानाय कंसस्य द्वेष्योयमिति चिन्तयन् १ =
चैत्रस्यार्थे सुनीथस्य जरासन्धस्तु भूमिपः । वरयागात् तां राजा
भीष्मकं भीमविक्रमम् ॥ १६ ॥ चेदिराजस्य तु वसोरासीत्पुत्रो
वृहद्रथः । मगधेषु पुरा येन निर्मितोसौ गिरिव्रजः ॥ २० ॥ तस्या-
न्ववाये जज्ञेसौ जरासन्धो महाबलः । वसोरेव तदा वंशे दम-
घोषोपि चेदिराट् ॥ २१ ॥ दमघोषस्य पुत्रास्तु पञ्च भीमपरा-
क्रमाः । भगिन्यां वसुदेवस्य श्रुतश्रवसि जज्ञिरे ॥ २२ ॥ शिशुपालो
दशग्रीवो रैभ्योयोपदिशो वली । सर्वास्त्रकुशला वीरावीर्य-
वन्तो महाबलाः ॥ २३ ॥ ज्ञातेस्समानवंशस्य सुनीथः प्रददौ

और बलबाले श्रीकृष्ण ही मेरे स्वामी हों ॥ १७ ॥ परन्तु महा-
बली रुक्मी अग्नि तेजस्वी श्रीकृष्णको द्वेषवश रुक्मिणी नहीं
देना चाहता था उसे कंसके बधका वड़ा भारी सन्ताप है इस लिये
जब श्रीकृष्णने उस कन्याकी याचनाकी थी तब उसने विचारा,
कि-यह तो कंसके शत्रु है १ = उधर राजा जरासन्धने चैत्रवंशी
सुनीथके पुत्रके लिये भयंकर पराक्रमी राजा भीष्मकसे उस
कन्याकी याचना की ॥ १६ ॥ चैदिराज वसुका पुत्र राजा
वृहद्रथ हुआ उन्होंने मगध देशमें गिरिव्रज बसाया था ॥ २० ॥
उसीके वंशमें यह महाबली जरासन्ध उत्पन्न हुआ है और वसु
के ही वंश में यह चेदिराज दमघोष भी उत्पन्न हुआ है २१
वसुदेवकी वहिन श्रुतश्रवामें दमघोषसे भयङ्कर पराक्रमी पाँच पुत्र
उत्पन्न हुए हैं ॥ २२ ॥ शिशुपाल, दशग्रीव, योपदिश और वली
यह महाबलवान् वीर्यवान् तथा सब अस्त्रोंमें कुशल शूरवीर
हैं ॥ २३ ॥ सुनीथने अपने समान वंश और जाति वाले पुत्र
(शिशुपाल) को देदिया था अर्थात् जरासंधसे यह कर शिशु-
पालको देदिया था, कि-यह आपका सहकारी होगा इसलिये

सुतम् । जरासन्धस्तु सुतवद्दर्शनं जुगोप च ॥ २४ ॥ जरा
सन्धं पुरस्कृत्य वृष्णिशत्रुं महाबलम् । कृतान्यागांसि चैश्वरे
वृष्णीनां चाप्रियैषिणा ॥ २५ ॥ जामाता त्वभवत्तस्य कंस-
स्तस्मिन् हते युधि । कृष्णार्थं वैरमभवत्जरासन्धस्य वृष्टिभिः २६
भीष्मकं वरयामास सुनीथार्थं च रुक्मिणीम् । तां ददौ भीष्म-
कश्चापि शिशुपालाय वीर्यवान् ॥ २७ ॥ ततश्चैत्रमुपादाय जरा-
सन्धो नराधिपः । ययौ विदर्भान् सहितो दन्तवक्रेण यापिनारट
अनुज्ञातश्च पाँड्रेण वामुदेवेन धीमता । अङ्गवङ्गकलिगानामीश्वरः
स महाबलः ॥ २८ ॥ गानधिष्णश्च तान् रुक्मी, मत्स्युद्गम्य नरा-
धिपान् । वरयापूजयोपेतांस्तान्निनाग्र पुरीं, मनि ॥ ३० ॥ पितृ-
वृष्टुः प्रियार्थं च रामकृष्णाखुंभानपि । प्रययुर्वृष्णमश्वान्ये रथै

जरासन्ध उसको पुत्रकी समान देवता था, और उसकी रक्षा
करता था ॥ २४ ॥ वृष्णिवंशिगोके शत्रु महाबली- जरासंधके
कारण चेदिराज वृष्णिवंशिगोका अपिय करना चाहता था
और उनको दुःख देना चाहता था ॥ २५ ॥ कंस जरासंधका
जामाता था जब कंस युद्धमें मारा गया तब कृष्णके कारण
जरासन्धने वृष्णिवंशिगोसे नैर बॉध लिया ॥ २६ ॥ और
सुनीथके पुत्र शिशुपालके लिये भीष्मकसे रुक्मिणीको माँगा
वीर्यवान् भीष्मकने शिशुपालके लिये अपनी कन्या देना स्वी-
कार भी करलिया तदनन्तर राजा जरासन्ध चेदिराज शिशु-
पालको लेहम्-विदर्भ नगरीको चला और उसके पीछे २ दन्त-
वक्र भी चला ॥ २७ ॥ वह महाबली अङ्ग वङ्ग और कलिङ्ग
देशोंका ईश्वर था और बुद्धिमान् पाँडू वामुदेवने उससे इस
बातके लिये कहा था ॥ २८ ॥ रुक्मी उन राजाओंका सत्कार
करनेके लिये उनके सामने गया और उन श्रेष्ठ पूजा पाने योग्य
पुरुषोंका अपनी पुरीमें लेयाया ॥ ३० ॥ इन्द्र बलराम और

स्तन वनान्विताः ॥ ३१ ॥ क्रथकैशिकभर्ता तान् प्रतिशृणु यथा-
विधि । पूजपापास पूनार्हान् वहिश्चैव न्यवेशयत् ॥३२॥ एवो
भात्रिनि विवाहे च रुक्मिणी निर्गयौ वदिः । चतुर्थुगा रथेनैन्द्रे
देवनायतने शुभे ॥ ३३ ॥ इन्द्राणीपर्वपिष्यन्ती कृतकौतुक
गङ्गला । दीप्यमानेन वपुषा बलेन महना वृता ॥३४॥ तां ददश
तदा कृष्णो लक्ष्मीं साक्षादिव स्थिताम् । रूपेणाभ्येण सम्पन्नां
देवगायतनान्तिके ॥ ३५ ॥ वहैरिव जिखा दीप्तां मायां भूमि-
गतामिव । पृथिवीमिव गम्भीरामुस्थितां पृथिवीतलात् ॥ ३६ ॥
मरीचिमिव सोमस्य सौम्यां स्त्रीविद्रहां भुवि । भीमिवाग्र्यां
विना पद्मं भविष्यां श्रीसहायिनीम् । कृष्णेन मनसा दृष्टां दुर्निरी-

श्रीकृष्ण यह दोनों भी अपनी बुद्धिका प्रिय करनेके लिये वहाँ
को चले और दूसरे वृष्णिवंशी महारथीभी सेनाको लेकर वहाँ
को चले ॥ ३१ ॥ क्रथ और कैशिकोंके स्वामीने उन सबको
उचित रीतिसे लेलिया उन पूजा योग्य पुरुषोंकी पूजाकी और
उनको बाहर ही ठहरा दिया ॥ ३२ ॥ रुक्मिणीका विवाह
कलसो होनेवाला था इस लिये रुक्मिणी ज्येष्ठा नक्षत्र में चार
घोड़ोंसे जुते हुए रथमें बैठ पवित्र देवालयमें जानेके लिये बाहर
निकली ॥ ३३ ॥ तहाँ वह इन्द्राणीकी पूजा करनेवाली थी
उसके कौतुक और मंगल सब होगए थे उसका शरीर मदीप्त
होरहा था और वह बड़ी भारी सेनासे घिरी हुई थी ॥ ३४ ॥
उससमय श्रीकृष्णने देवालयके पास खड़ी हुई परमरूपवती
रुक्मिणीको साक्षात् लक्ष्मीकी समान खड़ी हुई देखा ॥३५॥
उस अग्निकी प्रदीप्त शिखाकी समान भूमिमें आई हुई मागधी
समान पृथ्वीतलमेंसे निकली हुई गम्भीर पृथ्वीकी समान और
पृथ्वी पर स्त्रीका स्वरूप धारण करके आई चन्द्रिकाकी फिरण
समान पद्मरहित परमशोभाकी समान भविष्यमें लक्ष्मीकी सहा-

च्यां सुरैरपि ॥ ३७ ॥ श्यामावदाता सा ह्यासीत् पृथुचार्याप-
 तेक्षणा । ताम्नीष्टनयनापाङ्गी पीनोरुजघनस्तनी ॥ ३८ ॥ बृहती
 चारुसर्वांगी तन्वी शशिसितानना । ताम्रतुङ्गनखी सुभूर्नील-
 कुञ्चितमूर्धजा ॥ ३९ ॥ अत्यर्थं रूपतः कान्ता पीनश्रोणिपयो-
 धरा । तीक्ष्णशुक्लौः समैर्दन्तैः प्रभासद्भिरलंकृता ॥ ४० ॥
 अनन्या प्रमदा-लोकं रूपेण यशसा श्रिया । रुक्मिणी रूपिणी
 देवी पांडुरत्नौगवासिनी ॥ ४१ ॥ तां दृष्ट्वा बभूवुः कामः कृष्णस्य
 प्रियदर्शनाम् । इविषेवानलस्यार्चिर्मनस्तभ्यां समादधत् ॥ ४२ ॥
 रामेण सह निश्चित्य केशवस्तु महाबलः । तत्प्रभायेऽकरोद् बुद्धि-

यिका होनेवाली कृष्णके मनमें दीखनेवाली देवताओंसेभी कठिन
 से देखने योग्य (रुक्मिणीको श्रीकृष्णने देखा) ॥ ३६-३७ ॥
 वह श्यामा थी उसके दाँत श्वेत थे उसके नेत्र विशाल और
 सुन्दर थे ओठ अर्धमांग और नेत्र ताँबेकी समान थे और जंघा
 जघन तथा स्तन स्थूल थे ॥ ३८ ॥ उसके सब अङ्ग मनोहर थे
 वह तन्वी थी और उसका मुख चन्द्रमाकी समान श्वेत था उसके
 नख ऊँचे और ताँबेके रंगके थे उसकी भौंहें सुन्दर थीं और
 उसके केश काले घुँघराले थे ॥ ३९ ॥ वह रूपके कारण अति-
 मनोहर मालूम पड़ती थी उसकी श्रोणि और पयोधर स्थूल थे
 और वह तीखे सफेद एकसे प्रकाशित रहनेवाले दाँतोंसे अलं-
 कृत थे ॥ ४० ॥ वह अपने रूप, यश और लक्ष्मीसे संसारमें
 अनुपम स्त्री थी रूपवती रुक्मिणी देवी पाण्डुर वर्णके रेशमी
 वस्त्रको धारण कररही थी ॥ ४१ ॥ जैसे घी हालनेसे अग्नि
 की लपट बढ़ने लगती है इसीप्रकार उस प्रियदर्शनाको देखकर
 श्रीकृष्णका काम बढ़ने लगा और उन्होंने अपना मन उसीमें
 लगादिया ४२ महाबलवान् केशवने बलरामजीके साथ निश्चय
 करके वृष्णिवंशियोंसे निवेदन करके रुक्मिणीके हरनेका

दृष्टिभिः प्रणिधाय च ॥ ४३ ॥ कृते तु देवताकार्ये निष्कामंती
 सुरालयात् । उन्मथ्य सहसा कृष्णः स्वं निनाय रथोत्तमम् ४४
 वृत्तमुत्पाद्य रामोपि जघानापततः परान् । समनहंत दाशार्हा-
 स्तदाज्ञप्ताश्च सर्वशः ॥ ४५ ॥ ते रथैर्विनिधाकारैः समुच्छ्रित-
 महाभजैः । बाजिभिर्वारणैश्चैव परिवव्रुर्हलायुधम् ४६ आदाय
 रुक्मिणीं कृष्णो जगामाशु पुरीं पति । रामे भारं समासज्य
 युयुधाने च वीर्गवान् ॥ ४७ ॥ अक्रूरे विपृथुं चैव गदे च कृत-
 वर्मणि । चक्रदेवे सुदेवे च सारणे च महावले ॥ ४८ ॥ निर्वृत्त-
 शर्मा विक्रान्ते भंगकारे विदूरथे । उग्रमेनात्मजे कंके शतघुम्ने
 च केशवः ॥ ४९ ॥ राजाधिदेवे मृदुरे प्रसेने चित्रके तथा । अति-
 दान्ते बृहद्दुर्गे रवफल्के सत्यके पृथु ॥ ५० ॥ दृष्ट्वयन्धकेषु

विचार किया ॥ ४३ ॥ जब वह देवपूजाका कार्य करके
 मन्दिरमेंसे बाहरको निकल रही थी उस समय श्रीकृष्णने एक
 साथ उसको उठा कर अपने श्रेष्ठ रथ पर बैठा लिया ॥ ४४ ॥
 उस समय बलरामने भी आक्रमण करने वाले शत्रुओंको वृत्त
 उठा कर मारा उस साथ बलरामजीके आज्ञा देने पर दाशार्ह
 भी सब ओरसे तयार होगए ॥ ४५ ॥ वे अनेक प्रकारके आकार
 वाले उठी हुई महाभजा वाले रथों पर बैठ कर और हाथी तथा
 घोड़ों पर बैठ कर धलदेवजीके चारों ओर खड़े होगए ॥ ४६ ॥
 वीर्गवान् केशव बलरामजीके ऊपर भारको ढोड़ रुक्मिणी
 को लेकर शीघ्रतासे द्वारकाको चले गए ॥ ४७ ॥ तथा अक्रूर,
 विपृथु गद, कृतवर्मा, चक्रदेव, सुदेव महावली सारण, शत्रुओं
 में आनन्द माननेवाले विक्रमा भंगकार, विदूरथ, उग्रसेनके पुत्र
 कंक, शतघुम्न, राजाधिदेव मृदुर, प्रसेन, चित्रक, अतिचतुर
 बृहद्दुर्ग, रवफल्क, सत्यक, पृथु और भी मुख्य २ दृष्टि तथा
 अन्धरुवशिष्यों पर बड़े भारी भारको रख कर मधुदैत्यका नाश

चान्येषु मुखत्रेषु गधुमूदनः । गुरुमासज्य तं भारं ययौ द्वारवतीं
पति ॥ ५१ ॥ दन्तवक्रो जरासन्धः शिशुपालश्च वीर्यवान् ।
सन्नद्धा निर्ययुः क्रुद्धा निघ्रांसन्तो जनार्दनम् ॥ ५२ ॥ अङ्ग-
चंगकलिंगै च सार्धं पाँडुश्च वीर्यवान् । निर्ययौ चैदिराजस्तु
भ्रातृभिः स महारथैः ॥ ५३ ॥ तान् प्रत्यगृह्यन् सरन्ध्रा वृष्णि-
वीरा महारथाः । संकूर्पणं पुरस्कृत्य वासवं मरुतो यथा ॥ ५४ ॥
आपतन्तं हि वेगेन जरासन्धं महाबलम् । पद्भिर्विव्याध नारा-
चैर्युधुधानो महामुधे ॥ ५५ ॥ अक्रूरो दन्तवक्रं तु विव्याध
नवभिः शरैः । तं मत्प्रविद्धवत् कारुण्यो बाणदर्शगिराशुगैः ५६
विष्टयुः शिशुपालं तु शरैर्विव्याध सप्तभिः । अष्टभिः प्रत्यविद्धयत्तं
शिशुपालः मतापवान् ॥ ५७ ॥ गवेषणस्तु चैद्यन्तु पद्भिर्विव्याध
मार्गणैः । अतिदान्तस्तथाष्टाभिर्वृद्धदुर्गश्च पंचभिः ॥ ५८ ॥

करनेवाले श्रीकृष्ण द्वारकापुरीको चले गए ४८-५१ उस समय
दन्तवक्र जरासन्ध वीर्यवान् शिशुपाल क्रोधमें भर कर जनार्दनको
मारनेकी इच्छासे तगार होकर निकल पड़े । चैदिराज भी अपने
महाबली भाइयोंको साथ लेकर और वीर्यवान् पाँडू भी अङ्ग
वङ्ग और कलिंग वालोंको साथमें लेकर निकल पड़ा ॥ ५३ ॥
जैसे देव ॥ इन्द्रको आगे कर लेते हैं इसी प्रकार क्रोधमें भरे हुए
महारथी वृष्णिवीरोंने भी बलदेवजीको आगे करके उनका
सापना किया ॥ ५४ ॥ महाबली राजा जरासन्ध वेगसे दौड़ा
आरहा था सात्यकिने महायुद्धमें उसको छः बाणोंसे घायल
किया ॥ ५५ ॥ अक्रूरने दन्तवक्रको नौ बाणोंसे घायल किया
कारुण्य देशी दन्तवक्रने उसको तेज जाने वाले दशबाणोंसे फिर
घायल किया ॥ ५६ ॥ विष्टयुने शिशुपालके सातबाण मारे तो
प्रतापी शिशुपालने भी उसके आठ बाण मारे ॥ ५७ ॥ चैदिराज
के गवेषणने छः अतिदान्तने आठ और वृद्धदुर्गने पाँच बाण

गतिविद्ययाध तांश्चैत्रः पञ्चभिः पञ्चभिः शरैः । जयानाश्वाश्च
 चतुरश्चतुर्भिर्विपृथोः शरैः ॥ ५६ ॥ बृहद्दुर्गस्य भन्त्लेन शिर-
 शिचच्छेद चारिहा । गवेपणस्य सूतं तु माहिणोद्यमसादनम् ६०-
 हतारवं तु रथं त्यक्त्वा विपृथुस्तु महावलः । आरुरोह रथं शीघ्रं
 बृहद्दुर्गस्य वीर्यवान् ॥ ६१ ॥ विपृथोः सारथिश्चापि गवेपण-
 रथं द्रुतम् । आरुह्य जयानाश्वान्नियन्तुमुपचक्रमे ॥ ६२ ॥ ते
 क्रुद्धाः शरवर्षेण सुनीथं समवाकिरन् । नृत्यन्तं रथमार्गेषु चाप-
 हस्ताः कलापिनः ॥ ६३ ॥ चक्रदेवो दन्तवक्रं विभेदारसि
 पत्रिणा । पद्मरथं पञ्चभिश्चैव विज्याध युधि मार्गणैः ॥ ६४ ॥
 ताभ्यां स निद्रो दशभिर्बाणैर्मर्गातिगैः शितैः । ततो वली चक्र-
 देवं विभेद दशभिः शरैः ॥ ६५ ॥ पञ्चभिश्चापि विज्याध

मारे ॥ ५८ ॥ तब चेदिराजने उनमेंसे प्रत्येकके पाँच २ बाण
 मारे और चार बाण झोड़ कर विपृथुके चारों घोड़ोंको मार
 डाला ॥ ५९ ॥ और शत्रुनाशी शिशुपालने बृहद्दुर्गके भन्त मार
 कर उसके शिरको काट डाला और गवेपणके दूतको यमसदन
 को भेज दिया ॥ ६० ॥ उस समय महावली वीर्यवान् विपृथु
 गरे हुए घोड़ों वाले रथको त्याग कर शीघ्रतासे बृहद्दुर्गके रथ पर
 सवार होगया ॥ ६१ ॥ विपृथुका सारथी भी शीघ्रतासे गवेपण
 के रथके ऊपर चढ़ गया और वेगवान् घोड़ोंको हँकने लगा ६२
 तदनन्तर हाथमें बाण और धनुषको धारण करने वाले क्रोधमें
 भरें हुए योधाओंने रथके मार्गमें नाचने हुए सुनीथको बाणोंकी
 वर्षा बरसा कर घेर लिया ॥ ६३ ॥ चक्रदेवने दन्तवक्रके हृदय
 को बाण मार कर घायल कर डाला और युद्धमें पद्मरथको पाँच
 बाण मार कर घायल किया ६४ तब उन दोनोंने उसको मर्म-
 भेदी दश दश बाण मारकर घायल किया तदनन्तर वलीने चक्र-
 देवके नौ बाण मारे ६५ और दूरसे ही पाँच बाण मार कर

चान्येषु मुखयेषु गधुमूदनः । गुह्यमासज्य तं भारं ययौ द्वारवतीं
प्रति ॥ ५१ ॥ दन्तवक्रो जरासन्धः शिशुपालश्च वीर्यवान् ।
सन्नद्धा निर्ययुः क्रुद्धा जित्रासन्तो जनार्दनम् ॥ ५२ ॥ अङ्ग-
वंगकलिगैः सार्धं पाँड्वैश्च वीर्यवान् । निर्ययौ चेदिराजस्तु
भ्रातृभिः स महारथैः ॥ ५३ ॥ तान् प्रत्यगृह्णन् संरन्धा वृष्णि-
वीरा महारथाः । संकूर्पणं पुरस्कृत्य वासवं मरुतो यथा ॥ ५४ ॥
आपतन्तं हि वेगेन जरासन्धं महाबलम् । पट्भिर्विव्याध नारा-
चैर्गुण्युधोनो महामृषे ॥ ५५ ॥ अक्रूरो दन्तवक्रं तु विव्याध
नवभिः शरैः । तं प्रत्यविद्धत् कारुणो बाणदर्शगिराशुगैः ५६
विपृथुः शिशुपालं तु शरैर्विव्याध सप्तभिः । अष्टभिः प्रत्यविद्धत्
शिशुपालः प्रतापवान् ॥ ५७ ॥ गवेषणस्तु चैद्यन्तु पट्भिर्विव्याध
मार्गणैः । अतिदान्तस्तथाष्टाभिवृद्दुर्गश्च पंचभिः ॥ ५८ ॥

करनेवाले श्रीकृष्ण द्वारकापुरीको चले गए ४८-५१ उस समय
दन्तवक्र जरासन्ध वीर्यवान् शिशुपाल क्रोधमें भर कर जनार्दनको
मारनेकी इच्छासे तगार होंछर निकल पड़े रचेदिराज भी अपने
महाबली भाइयोंको साथ लेकर और वीर्यवान् पाँडू भी अङ्ग
वङ्ग और कलिङ्ग वालोंको साथमें लेकर निकल पड़ा ॥ ५३ ॥
जैसे देवग इन्द्रको आगे कर लेते हैं इसी प्रकार क्रोधमें भरे हुए
महारथी वृष्णिवीरोंने भी बलदेवजीको आगे करके उनका
सापना किया ॥ ५४ ॥ महाबली राजा जरासन्ध वेगसे दौड़ा
आरहा था सात्यकिने महायुद्धमें उसको छः बाणोंसे घायल
किया ॥ ५५ ॥ अकरने दन्तवक्रको नौ बाणोंसे घायल किया
कारुण देशी दन्तवक्रने उसको तेज जाने वाले दशबाणोंसे फिर
घायल किया ॥ ५६ ॥ विपृथुने शिशुपालके सातबाण मारे तो
प्रतापी शिशुपालने भी उसके आठ बाण मारे ॥ ५७ ॥ चेदिराज
के गवेषणने छः अतिदान्तने आठ और वृद्दुर्गने पाँच बाण

गतिविध्याथ तारचैत्रः पञ्चभिः पञ्चभिः शरैः । जयानाशवांश्च
 चतुरश्चतुर्भिर्विपृथोः शरैः ॥ ५६ ॥ बृहद्दुर्गस्य भञ्जनेन शिर-
 रिचच्छेद चारिहा । गवेपणस्य सूतं तु माहिणोद्यमसादनम् ६०
 हताश्वं तु रथं त्यक्त्वा विपृथुस्तु महावलः । आरुरोह रथं शीघ्रं
 बृहद्दुर्गस्य वीर्यवान् ॥ ६१ ॥ विपृथोः सारथिश्चापि गवेपण-
 रथं द्रुतम् । आरुह्य जवनानश्वान्निघ्नन्तुमुपचक्रमे ॥ ६२ ॥ ते
 क्रुद्धाः शरवर्षेण सुनीथं समवाकिरन् । नृत्यन्तं रथमार्गेषु चाप-
 हस्ताः कलापिनः ॥ ६३ ॥ चक्रदेवो दन्तवक्रं विभेदारसि
 पत्रिणा । पद्मरथं पञ्चभिश्चैव विव्याध युधि मार्गणैः ॥ ६४ ॥
 ताभ्यां स निद्रो दशभिर्वाणैर्मर्गातिगैः शितैः । ततो वली चक्र-
 देवं विभेद दशभिः शरैः ॥ ६५ ॥ पञ्चभिश्चापि विव्याध

मारे ॥ ५८ ॥ तब चेदिराजने उनमेंसे गत्येकके पाँच २ बाण
 मारे और चार बाण झोड़ कर विपृथुके चारों घोड़ोंको मार
 डाला ॥ ५९ ॥ और शत्रुनाशी शिशुपालने बृहद्दुर्गके भञ्ज मार
 कर उसके शिरको काट डाला और गवेपणके दूतको यमसादन
 को भेज दिया ॥ ६० ॥ उस समय महावली वीर्यवान् विपृथु
 गरे हुए घोड़ों वाले रथको त्याग कर शीघ्रतासे बृहद्दुर्गके रथ पर
 सवार होगया ॥ ६१ ॥ विपृथुका सारथी भी शीघ्रतासे गवेपण
 के रथके ऊपर चढ़ गया और वेगवान् घोड़ोंको हॉकने लगा ६२
 तदनन्तर हाथमें बाण और धनुषको धारण करने वाले क्रोधमें
 भरे हुए योधाओंने रथके मार्गोंमें नाचने हुए सुनीथको बाणोंकी
 वर्षा बरसा कर घेर लिया ॥ ६३ ॥ चक्रदेवने दन्तवक्रके हृदय
 को बाण मार कर घायल कर डाला और युद्धमें पद्मरथको पाँच
 बाण मार कर घायल किया ६४ तब उन दोनोंने उसको गर्म-
 भेदी दश दश बाण मारकर घायल किया तदनन्तर वलीने चक्र-
 देवके नौ बाण मारे ६५ और दूरसे ही पाँच बाण मार कर

सोपि दूराद्विदूरथम् । विदूरथापि तं पड्भिर्विन्याधानौ शितैः
 शरैः ॥६६॥ त्रिशना प्रत्यविभ्यत्तं वली बाणैर्महाबलम् । कृत-
 वर्मा विभेदाज्ञौ राजपुत्रं त्रिभिः शरैः ॥ ६७ ॥ न्यहनत् सारथि
 चास्य ध्वजं चिच्छेद सोच्छ्रितम् । प्रतिगिन्यात् तं क्रुद्धः पौंड्रः
 पड्भिः शिलीमुखैः ॥ ६८ ॥ धनुश्चिच्छेद चाप्यस्य भवत्सेन
 कृतवर्मणः । निवृत्तशत्रुः कलिगं विभेद निशितैः शरैः । तोम-
 रेणांसदेशे तं निर्विभेद कलिगराट् ॥६९॥ गजेनासाध कंकस्तु
 गजमंगस्य वीर्यवान् । तोमरेण विभेदांगं विभेदांगश्च तं शरैः ७०
 चित्रकश्च श्वफल्कश्च सत्यकश्च महारथः । कलिगस्य तथा-
 नीकं नाराचैर्विभिदुः शितैः ॥ ७१ ॥ तं निसृष्टद्रुमेणाज्ञौ बंग-
 राजस्य कुञ्जम् । जघान रागः संक्रुद्धो बंगराजं च सयुगे ७२

विदूरथको पागल कर डाला विदूरथने भी युद्धमें दश तेज
 बाणोंसे उसको घायल किया ६६ तदनन्तर बलवान् शिशुपालने
 उस महाबलीके तीस बाण मारे उस समय कृतवर्माने राजपुत्र
 (पौण्ड्रक वासुदेव पुत्र) को तीन बाणोंसे भेद डाला ६७ उस
 के सारथीको भी मार डाला और उसकी उठी हुई ध्वजाको भी
 काट डाला तब तो पौण्ड्रने क्रोधमें भर कर कृतवर्माके छः बाण
 मारे ६८ और भवत्सु मार कर कृतवर्माके धनुषको भी काट
 डाला, निवृत्तशत्रुने कलिङ्गराजको तेज बाणोंसे छेद डाला तब
 कलिङ्गराजने तोमर मार कर उसके कन्धेको तोड़ डाला वीर्य-
 वान् कंक हाथी पर बैठ कर अङ्गराजके हाथीके पास पहुँचा और
 अङ्गराजको तोमरसे पीटा तब अङ्गराजने भी उसके बाण मारे ७०
 तब तो चित्रक श्वफल्क और महारथी सत्यकने कलिङ्गराजके
 और उसकी सेनाके सँकड़ों बाण मारे ७१ तदनन्तर जिसको
 द्रुपने छोड़ दिया था, ऐसे बङ्गराजके हाथीको और बङ्गराजको
 भी बलरामजीने क्रोधमें भर कर युद्धमें मार डाला ७२ उसको

तं इत्वा रथमारुह्य धनुरादाय वीर्यवान् । संकर्षणो जघानोत्रै-
 नरारिचैः कैशिकान् बहून् ७३ पद्भिर्निहत्य कारूपान् महेश्वासान्
 स वीर्यवान् । शतं जघानं संक्रुद्धो मागधानां महाबले ॥ ७४ ॥
 निहत्य तान् महाबाहुर्जरासन्धं ततोऽभ्ययात् । तमापतन्तं
 विव्याध नाराचैर्मागधस्त्रिभिः ॥ ७५ ॥ तं विभेदाष्टभिः क्रुद्धो
 नाराचैर्विविधायुधः । चिच्छेद चास्य भवलेन ध्वजं हेमपरिष्क-
 तम् ॥ ७६ ॥ तद् युद्धमभवद् घोरं तेषां देवासुरोपम् । सृजतां
 शरवर्षाणि निघ्नतागितरंतरम् ॥ ७७ ॥ गर्जैर्गजा हि संक्रुद्धा
 सन्निपेतुः सहस्रशः । रथै रथारच संरथाः सादिनश्चापि
 सादिभिः ॥ ७८ ॥ पदात्तयः पदार्ताश्च शक्तिचर्मासिपाणयः
 छिन्दन्तश्चोत्तर्मागानि विचेर्युधि ते पृथक् ॥ ७८ ॥ असीनां पात्य-

गारनेके बाद वीर्यवान् संकर्षण धनुषको लेकर रथ पर चढ़
 गये और बाणोंसे बहुतसे कैशिकोंको मार डाला ७३ उन वीर्य-
 वान् बलदेवजीने छः बाणोंसे महाधनुर्धर कारूपोंको मारा फिर
 उन्होंने क्रोधमें भर कर बड़ी भारी सेनाके बीचमें सौ मागधों
 को मार डाला ७४ उनको मारनेके बाद महाबली बलरामजी
 जरासन्धके पास पहुँचे तब आते हुए बलदेवजीके तीन बाण
 मारे ७५ तब तो भूसलका आयुध धारण करने वाले बलदेवजी
 ने क्रोधमें भर कर आठ बाणोंसे उसे घायल किया और बल्ल
 मार कर उसकी सुवर्णके कामवाली ध्वजाको काट डाला ७६
 जब वे इस प्रकार परस्परमें बाणोंकी वर्षा बरसा रहे थे उस समय
 उन दोनोंका युद्ध देवासुरके भयंकर युद्धकी समान प्रतीत होता
 था ७७ उसमें क्रोधमें भरे हुए सैंकड़ों हाथी हाथियोंसे लड़ रहे थे
 रथसवार रथसवारोंसे लड़ रहे थे और क्रोधमें भरे हुए सवार
 सवारोंसे लड़ रहे थे ७८ और शक्ति, तलवार तथा डाल लेने
 वाले पैदलोंसे लड़ रहे थे, इस प्रकार युद्धमें शिरोंको काटते हुए

मानानां कवचेषु महास्वनः । शराणां पततां शब्दः पक्षिणापिव
शुश्रुवे ॥ ८० ॥ भेरीशंखमृदङ्गानां वेणुनां च मृधे ध्वनिम् ।

जुगूह घोषः शस्त्राणां ज्याघोपश्च महात्मनाम् ॥ ८१ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि रुक्मिणीहरणं
नामैकोनपष्ठितमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥

वैशम्पायन उवाच । कृष्णेन हियमाणां तां रुक्मी श्रुत्वा तु
रुक्मिणीम् ॥ मतिज्ञामकरोत् क्रुद्धः समन्तं भीष्मकस्य ह ॥ १ ॥
रुक्म्युवाच । अहत्वा युधि गोविन्दमनानीय च रुक्मिणीम् ।
कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम् ॥ २ ॥ आस्थाय
स रथं वीरः समुद्रग्रायुधध्वजम् । जवेन प्रपर्या क्रुद्धो बलेन
महतो दृढः ॥ ३ ॥ तमन्वपुर्नृपारचैव दक्षिणापथवर्तिनः ।
क्राधोऽशुमान् श्रुतर्वा च वेणुदारिश्च वीर्यवान् ॥ ४ ॥ भीष्मकस्य

वह प्रथक् २ घुम रहे थे ७६ कवचों पर गिराई जाती हुई तल-
वारों और पड़ते हुए बाणोंका बड़ा भारी शब्द पक्षियोंके शब्द
की समान सुनाई आता था ८० भेरी शंख मृदङ्ग और वेणुओं
की ध्वनिको युद्धमें महात्माओंके शस्त्र और प्रत्यञ्चाओंके घोष
ने दवा दिया ८१ उनसठवों अध्याय समाप्त ५६

वैशम्पायनजीने कहा, कि-जब रुक्मीने सुना कि-श्रीकृष्ण
ने रुक्मिणीका हरण कर लिया है तब उसने क्रोधमें भर कर
भीष्मकके सामने मतिज्ञा की ॥ १ ॥ रुक्मीने कहा, कि-मैं युद्ध
में श्रीकृष्णको बिना मारे हुए और रुक्मिणीको लौटाए बिना
कुण्डिननगरमें नहीं घुमूँगा यह बात मैं सत्य कहता हूँ ॥ २ ॥
तदनन्तर वह वीर क्रोधमें भर चड़ी भारी सेनाको साथ ले
आयुध और ध्वजाओंसे भरे हुए रथमें बैठ कर बड़े वेगसे
चला ॥ ३ ॥ उसके पीछे २ दक्षिणापथमें रहनेवाले काथ,
अशुमान् श्रुतर्वा और वेणुदारि यह उसके पीछे २ चले ॥ ४ ॥

सुताश्चान्ये रथेन रथिनां वराः । क्रथकैश्चिगुत्पारच सर्व एव
 महारथाः ॥ ५ ॥ ते गत्वा दूरमध्वानं सरितं नर्मदामनु । गोविन्दं
 ददृशुः क्रुद्धाः सहैव प्रियया स्थितम् ॥ ६ ॥ अवस्थाप्य च
 तत्सैन्यं रुक्मी मदवलाग्बितः । चिकीर्षुर्द्वैरथं युद्धमभ्ययान्मधु-
 सूदनम् ॥ ७ ॥ स विव्याध चतुःपट्यां गोविन्दं तिशितैः शरैः ।
 तं मत्प्रविध्यत् सप्तत्या वाषीर्युधि जनार्दनः ॥ ८ ॥ यतमानस्य
 चिच्छेद ध्वजं वास्य महाबलः । जहार च शिरः कायात् सार-
 थेस्तस्य वीर्यवान् ॥ ९ ॥ तं कृच्छ्रगतमाज्ञाय परिचत्रुर्जनार्दनम् ।
 दान्तिणात्या जिघांसन्तो राजानः सर्व एव हि ॥ १० ॥ तमंशुमान्
 महाबाहुर्विव्याध दशभिः शरैः । श्रुतर्वा पञ्चभिः क्रुद्धो वेणुदा-
 रिरच सप्तभिः ॥ ११ ॥ ततोशुपन्तं गोविन्दो विभेदोरसि वीर्य-

रथियोंमें श्रेष्ठ भीष्मरुके दूसरे महारथी पुत्र और क्रथ कैशिकों
 में मुख्य सब महारथी भी उसके पीछे २ चले ॥ ५ ॥ उन्होंने
 बहुत दूर जाकर नर्मदाजीके किनारे पर अपनी प्रियाके साथ
 स्थित हुए गोविन्दको देखा तब वे क्रोधमें भर गए ॥ ६ ॥
 तदनन्तर, मद बलसे युक्त रुक्मी अपनी सेनाको तहाँ ही खड़ा
 कर द्वैरथ युद्ध करनेकी इच्छासे श्रीकृष्णके पास पहुँचा ॥ ७ ॥
 और उसने गोविन्दके साथ तेज बाण मारे तब युद्धमें जनार्दनने
 भी उसके सत्तर बाण मारे तदनन्तर महाबली श्रीकृष्णने उसकी
 ध्वजाको काट डाला फिर वीर्यवान् श्रीकृष्णने उसके सारथीके
 शिरको उसके धड़से अलग करदिया ६ उसको कष्टमें पड़ा हुआ
 देखकर सब दान्तिणात्य राजाओंने श्रीकृष्णको मारनेकी इच्छासे
 उनको घेरलिया ॥ १० ॥ महाभुज अंशुमान्ने श्रीकृष्णको दश
 बाणोंसे घायल करदिया और श्रुतर्वा ने उनके पाँच बाण मारे
 और क्रोधमें भरे हुए वेणुदारिने उनके साथ बाण मारे ॥ ११ ॥
 तदनन्तर वीर्यवान् गोविन्दने अंशुमान्के हृदयको तोड़ दिया

वान् । निपसाद् रथोपस्थे व्यथितः स नराधिपः ॥ १२ ॥ श्रुतर्वणो
जघानाश्वाश्चतुर्भिरचतुरः शरैः । वेणुदारैर्ध्वजं ह्रित्वा भुजं
विव्याध दक्षिणम् ॥ १३ ॥ तथैव च श्रुतर्वाणं शरैर्विव्याध
पञ्चभिः । शिश्रिये स ध्वजं श्रान्तो न्यपीदच्च व्यथान्वितः १४
मुञ्चन्नः शरवर्षाणि वासुदेवं ततोभ्ययुः । क्रथकैशिकमुख्यारच
सर्व एव महारथाः ॥ १५ ॥ बाणैर्वाणांश्च चिच्छेद तेषां युधि
जनार्दनः । जघान चैषां संरन्ध्रः पतमानश्च ताञ्छरान् ॥ १६ ॥
पुनरन्यांश्चतुःपट्या जघान निशितैः शरैः । क्रुद्धानपि ततो
वीरानाद्रवत् स महावलः ॥ १७ ॥ विद्रुतं स्ववल् दृष्ट्वा रुक्मी
क्रोधवशं गतः । पञ्चभिर्निशितैर्वाणैर्विव्याधोरसि केशवम् ॥ १८ ॥
सारथिं चास्य विव्याध सायकैर्निशितैस्त्रिभिः । श्याजघान शरे-
णास्य ध्वजं च नतपर्वाणा ॥ १९ ॥ केशवस्त्वरितं दृष्ट्वा क्रुद्धो

तव वह राजा व्यथित होकर रथकी बैठक पर ही बैठ गया १२
श्रुतर्वाने चार बाण मारकर वेणुदारिके चारों ओरोंको मार
डाला और उसकी ध्वजाको काटकर उसकी दाहिनी भुजाको
घायल करदिया १३ इसी प्रकार श्रुतर्वानेकी भी घायल करदिया
तव वह शान्त हो तथा व्यथित हो ध्वजाके ऊपर गिरपड़ा १४
तदनन्तर क्रथ केशिकोंमें मुख्य सब महारथियोंने बाण बरसाते २
श्रीकृष्णके ऊपर चढ़ाई करदी । १५ । युद्धमें जनार्दन अपने
बाणोंसे अनेक बाणोंको काटने लगे और क्रोधमें भरकर उन
गिरते हुए बाणोंका चूरा करनेलगे फिर उन्होंने दूसरोंको
चाँसठ बाणोंसे मारा, क्रोधमें भरे हुए वीरोंको श्वाता हुआ देख
कर वह महावली उनके ऊपर चढ़गया ॥ १७ ॥ रुक्मीने जब
अपनी सेनाको भागते हुए देखा तव वह क्रोधमें भरगया और
उसने पाँच तेज बाण कृष्णके वल्लःस्थलमें मारे ॥ १८ ॥ और
उाके सारथीके भी तीन तेज बाण मारे और नमी हुई गोट

विष्याध मार्गणीः । धनुश्चिच्छेद चाप्यस्य यतगानस्य रुक्मिणः ।
 अथान्गुणुरादाय रुक्मी कृष्णजिघांसया । प्रादुश्कार चान्यानि
 दिव्यान्वस्त्राणि वीर्यवान् ॥ २१ ॥ अस्त्रैरस्त्राणि संवार्य तस्य
 कृष्णो महाबलः । पुनश्चिच्छेद तच्चवां रथेषां च त्रिभिः शरैः २२-
 सच्छिन्नधन्वा विरथः खड्गमादाय चर्म च । उत्पपात रथाद्वीरो
 गरुत्मानिव वीर्यवान् ॥ २३ ॥ तस्याभिपततः खड्गं चिच्छेद
 युधि केशवः । नाराचैश्च त्रिभिः क्रुद्धो विभेदैर्नमथोरसि । २४।
 स पपात महाबाहुर्वसुधामनुनादयन् । विसंज्ञो मूर्च्छितो रागा
 वज्रेणैव महाशुरः ॥ २५ ॥ तांश्च राज्ञः शरैः सर्वान् पुनर्विष्याध
 माधवः । रुक्मिणं पतितं दृष्ट्वा व्यद्वन्त नराधिपाः ॥ २६ ॥

वाला बाण मारकर उनकी ध्वजाको छिन्न भिन्न कर दिया १६
 केशवने फुर्तीमें इस बातको देखा और क्रोधमें भरकर उसको
 घायल कर दिया फिर चेष्टा करनेवाले रुक्मीको धनुषको भी काट
 डाला तदनन्तर वीर्यवान् रुक्मीने कृष्णको मारनेकी इच्छासे
 दूसरा धनुष उठा लिया और भिन्न २ दिव्य अस्त्रोंको मकड़
 करने लगा ॥ २० ॥ २१ ॥ तब तो महाबली कृष्णने अपने
 अस्त्रोंको हटाकर उसके धनुषको फिर काट डाला और रथकी
 ईपाको भी तीन बाणोंसे काट डाला २२ तदनन्तर जिसका धनुष
 टूट गया है और जिसका रथ नष्ट होगया था ऐसा वीर्यवान्
 वीर रुक्मी डाल तलवार लेकर गरुड़जीकी समान रथ परसे
 कूद पड़ा जब वह आरहा था तब ही केशवने युद्धमें उसके
 खड्गको काट डाला और क्रोधमें भर उसकी छातीमें तीन बाण
 मारे तब तो वह मूर्च्छित और संज्ञारहित हुआ महाशुभ राजा
 वज्रसे मारे हुए महा अशुरकी समान पृथिवीको दहलाता हुआ
 गिर पड़ा ॥ २३-२५ ॥ फिर माधवने उन सब राजाओंको
 बाण मारकर घायल करना आरम्भ कर दिया रुक्मीको गिरा

विचेष्टमानं तं भूमौ भ्रातरं वीच्य रुक्मिणी । पादयोर्न्यपतद्विष्णो-
भ्रातुर्जीवितकान्तिणी ॥ २७ ॥ तामुत्थाप्य परिष्वज्य सांत्वया-
मास केशवः । अभयं रुक्मिणे दत्त्वा प्रययौ स्वपुरीं ततः ॥ २८ ॥
वृष्णयोगि जरासन्धं भङ्क्त्वा तांश्चैव पार्थिवान् । मययुर्द्वारकां
हृष्टाः पुरस्कृत्य हलायुधम् ॥ २९ ॥ मयाते पुण्डरीकाक्षे श्रुतर्वा-
भ्येत्य संगरे । रुक्मिणं रथमारोप्य प्रययौ स्वां पुरीं प्रति ३०
अनानीय स्वसारं तु रुक्मी मानमदान्वितः । हीनमतिज्ञो नैच्छत्
स प्रवेष्टुं कुण्डिनं पुरम् ॥ ३१ ॥ विदर्भेषु निवासार्थं निर्ममेऽन्यत्
पुरं महत् । तद्भोजकटमित्येव बभूव भुवि विश्रुतम् ॥ ३२ ॥
तत्रौजसा महातेजा दक्षिणां दिशमन्वशात् । भीष्मकः कुण्डिने
चैव राजोवास महाभुजः ॥ ३३ ॥ द्वारकां चापि संभासे रामे

हुआ देख कर सब राजे भागने लगे ॥ २६ ॥ रुक्मिणी अपने
भाईको पृथिवीमें तड़फड़ाता हुआ देखकर अपने भाईके जीवन
की आकांक्षासे विष्णुके चरणोंमें गिर पड़ी ॥ २७ ॥ तब
श्रीकृष्णने उसको उठाकर आलिङ्गन कर सांत्वना दी और
उसको अभयदान देकर अपनी पुरीको चले गए ॥ २८ ॥ उधर
विष्णु भी जरासन्धको और उन राजाओंकेको भगा कर और
वल्लरामजीको आगे कर मसन्न होते हुए द्वारकाको चले २९
जब पुण्डरीकाक्ष चले गए तब श्रुतर्वा संग्राममें आया और
रुक्मीको रथमें बैठा कर अपनी पुरीकी ओर चला ॥ ३० ॥
गान और गदसे युक्त रुक्मी अपनी बहिनको लौटाकर नहीं
लासका या इस लिये उसने अपनी मतिज्ञाको पूर्ण न कर
सकनेके कारण कुण्डिनपुरमें घुसना नहीं चाहा ॥ ३१ ॥
और उसने विदर्भदेशमें एक दूसरा नगर बसा लिया वह नगर
पृथ्वीमें भोजकट नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ३२ ॥ उस महाबल-
वान्ने तहाँ परसे ही अपने बलसे दक्षिण दिशाका शासन

वृष्णिबलान्विते । रुक्मिण्याः केशवः पाणि जग्रह विधिवत् प्रभुः ॥ ३४ ॥ ततः सह तया रेमे प्रियया प्रीयमाणया । सीतयेव पुराः रामः पौलोम्येव पुरन्दरः ॥ ३५ ॥ सा हि तस्याभवज्ज्येष्ठा पत्नी कृष्णस्य भामिनी । पतिव्रता गुणोपेता रूपशीलगुणान्विता ॥ ३६ ॥ तस्यामुत्पादयामास पुत्रान् दश महारथान् । चारुदेष्णं सुदेष्णं च प्रद्युम्नं च महाबलम् । ३७ ॥ सुपेणं चारुगुप्तं च चारुबाहुं च वीर्यवान् । चारुविन्दं सुचारुं च भद्रचारुं तथैव च ॥ ३८ ॥ चारुं च बलिनां श्रेष्ठं सुतां चारुमतीं तथा । धर्मार्थकुशलास्ते तु कृतास्त्रा युद्धदुर्मदाः ॥ ३९ ॥ महिषी सप्त कन्याणीस्ततोऽन्या मधुसूदनः । उपयेमे महाबाहुर्गुणोपेताः कुलोद्भवाः ॥ ४० ॥ कालिदीं मित्रविदां च सत्यां नाग्नजितीमपि ।

क्रिया और महाभुज राजा भीष्मक कुण्डिनपुरमें ही रहा । ३३। जब बलरामजी वृष्णियोंकी सेनाको लेकर मथुरामें पहुँच गए तब मधु केशवने रुक्मिणीके साथ विधिपूर्वक पाणिग्रहण संस्कार किया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर अपनी प्रसन्न होने वाली पियाके साथ वह इस प्रकार रमण करने लगे जिस प्रकार पहले रामने सीताके साथ विहार किया था और जैसे इन्द्र इन्द्राणीके साथ विहार करते हैं ॥ ३५ ॥ पतिव्रताके गुणोंसे युक्त रूप शील और गुणवाली वह भामिनी ही श्रीकृष्णकी पटरानी हुई ३६ उसमें वीर्यवान् श्रीकृष्णने चारुदेष्ण, सुदेष्ण, महाबली प्रद्युम्न सुपेण, चारुगुप्त, चारुबाहु, चारुविन्द, सुचारु, भद्रचारु तथा बलवानोंमें श्रेष्ठ चारु नामक दश महाबली पुत्रोंको उत्पन्न किया और चारुमती नाम वाली श्रेष्ठ पुत्रीको भी उत्पन्न किया वे सब धर्म और अर्थमें कुशल थे अस्त्रविद्यामें पारंगत थे और युद्धमें दुर्मद थे ३७-३९ महाभुज श्रीकृष्णने खानदानमें उत्पन्न हुई गुणयुक्त और भी सात कन्याणी स्त्रियोंको अपनी पटरानी

स तां जाम्बवतश्चापि रोहिणीं कामरूपिणीम् ॥४१॥ मद्राज-
सुतां चापि सुशीलां शुभलोचनाम् । सात्राजितीं सत्यभामां
लक्ष्मणां चारुहासिनीम् ॥४२॥ शैव्यस्य च सुतां तन्वीं रूपेणा-
प्सरसोपमाम् । स्त्रीसहस्राणि चान्यानि पौडशातुलविक्रमः ।
उपयेमे हृषीकेशः सर्वा भजे स ताः सगम् ॥४३॥ परार्धवस्त्रा-
भरणाः कामैः सर्वैः सुखोचिताः । जज्ञिरे ताम्बु पुत्रारच तस्य
वीराः सहस्रशः ॥ ४४ ॥ शास्त्रार्थकुशलाः सर्वे बलवन्तो महा-

वनाया था ॥४०॥ (उनके नाम इस प्रकार हैं) कालिन्दी, (यह
सूर्यकी पुत्री यमुना उनकी पहली पटरानी थी) मित्रनन्दा,
(यह राजाभिदेवोमें आवन्त्यसे उत्पन्न हुई दूसरी पटरानी थी)
नग्नजितकी पुत्री सत्या, (यह अयोध्याके राजा नग्नजितकी
पुत्री तीसरी पटरानी थी) जाम्बवानकी पुत्री (चौथी जाम्ब-
वती पटरानी थी) इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली रोहिणी,
(कैकेयसे श्रुतकीर्तिमें उत्पन्न हुई पाँचवीं पटरानी थी इसका
भद्रा नाम भी था) ॥ ४१ ॥ शुभनेत्रवाली सुशीला मद्राजकी
पुत्री लक्ष्मणा, (छठी पटरानी थी) सुन्दर हास्य करने वाली
सात्राजितकी पुत्री सत्यभामा, (सातवीं पटरानी थी) ४२ और
रूपमें अप्सराकी समान शैव्यराजकी सूक्ष्मांगी पुत्री (गान्धारी
नाम वाली आठवीं पटरानी थी, यह आठ पटरानियों है रुक्मिणी
सान्नात् लक्ष्मी थी इसलिये उसकी गिन्ती नहीं है) अमित पराक्रमी
श्रीकृष्णने और भी सोलह सहस्र स्त्रियोंसे विवाह किया
था और उनका एक साथ ही सेवन करते थे (अर्थात् एक सगम
ही योगेस्वर होनेके कारण भिन्न २ मूर्ति धारण करनेके कारण
सबका एक साथ ही सेवन करते थे अलग २ नहीं) ४३ उन
स्त्रियोंमें बहुमूय्य आभूषणोंको धारण करने वाले सब कामना
और सुखके योग्य सहस्रों वीर पुत्र उत्पन्न हुए थे ४४ वे सब

रथाः । यज्वानः पुण्यकर्माणो महाभागा महाबलाः ॥ ४५ ॥
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि रुक्मिणीहरणं
नाम षष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥

वैशम्पायन उवाच । ततः काले व्यतीते तु रुक्मी गदति
वीर्यवान् । दुहितुः कारयामास स्वयम्बरमरिन्दम ॥ १ ॥ तत्रा-
हूता हि राजानो राजपुत्रारव रुक्मिणा । समाजगर्भमहावीर्या-
नानादिभ्यः श्रिपान्विताः ॥ २ ॥ तत्राजगाम प्रद्युम्नः कुमारैरपरै-
र्द्वैतः । सा हि तं चकमे कन्या स च तां शुभलोचनाम् ॥ ३ ॥
शुभांगी नाम वीदर्भी कान्तिद्युतिसपन्विता । पृथिव्यामभवत्
ख्याता रुक्मिणस्तनया तदा ॥ ४ ॥ उपविष्टेषु सर्वेषु पार्थिवेषु
महात्मसु । वीदर्भी वरयामास प्रद्युम्नमरिसूदनम् ॥ ५ ॥ स हि
सर्वास्त्रकुशलः सिंहसंहननो युवा । रूपेणाप्रतिमो लोके केश-

शास्त्रके अर्थोंमें कुशल थे सब बलवान् थे और महारथी थे यज्ञ
करने वाले पुण्य कर्म करने वाले महाबलवान् और महाभाग्य-
वान् थे ४५ साठवाँ अध्याय समाप्त ६०

वैशम्पायनजीने कहा, कि हे अरिदमन ! तदनन्तर बहुतसा
समय बीतने पर वीर्यवान् रुक्मीने अपनी पुत्रीका स्वयम्बर
क्रिया १ तब रुक्मीने बहुतसे राजपुत्र और राजाओंको बुलाया
तब शोभासम्पन्न महावीर्य पुरुष अनेक दिशाओंसे आए २
तहाँ पर प्रद्युम्न भी दूसरे कुमारोंके साथ आया था उस कन्याने
उसकी अभिलाषाकी और वह भी उस शुभलोचना कन्याको
चाहने लगा ॥ ३ ॥ उस कान्ति और द्युतिसे युक्त वीदर्भीका नाम
शुभाङ्गी था वह रुक्मीकी पुत्री उस समय पृथ्वीमें प्रसिद्ध होगई
थी ॥ ४ ॥ जब सब महात्मा राजा बैठे थे उस समय वीदर्भीने
शत्रुओंको दवानेवाले प्रद्युम्नको वरलिया ॥ ५ ॥ वह केशवके
पुत्र भी संसारमें अनुपम रूप वाले थे सब अस्त्रोंमें कुशल थे

वस्यात्मजोऽभवत् ॥ ६ ॥ वयोवृद्धागुणोपेता राजपुत्री च साऽभवत् ।
 नारायणी चन्द्रसेना जातकामा च तं प्रति ॥ ७ ॥ वृत्ते स्वयंवरे
 जग्मू राजानः स्वपुराणि ते । उपादाय च वैदर्भीं प्रद्युम्नो द्वारका
 यया ॥ ८ ॥ रेमे सह तथा वीरो दमयन्त्या नलो यथा । स तस्यां
 जनयामास देवाभोपमं सुतम् ॥ ९ ॥ अनिरुद्धमिति ख्यातिं
 कर्मणाऽप्रतिमं भुवि । धनुर्वेदे च वेदे च नीतिशास्त्रे च पारगम्
 अभवत् स यदा राजन्ननिरुद्धो वयोन्वितः । तदाऽस्य रुक्मिणः
 पौत्रीं श्रीगतीं रुक्मसन्निभाम् । पत्न्यर्थं वरेयामास नाम्ना रुक्म-
 वतीति सा ॥ ११ ॥ अनिरुद्धं गुणैर्दातुं कृतबुद्धिर्नृपस्ततः ।
 प्रीत्या हि रौक्मिण्येवस्य रुक्मिण्याथाप्युपग्रहात् ॥ १२ ॥ वि-
 स्पर्धन्नपि कृष्णेन दैरं त्यज्य महायशाः । ददामीत्यब्रवीद्राजा

उनके अङ्ग सिंहकी समान अति दृढ़ थे और तरुण थे ॥ ६ ॥
 वह राजपुत्री अवस्था और गुणसे युक्त थी लक्ष्मीस्वरूपा और
 चन्द्रमाकी चांदनीही समान थी और प्रद्युम्नसे स्नेह करने लगी
 थी ॥ ७ ॥ स्वयंवरके वीत जाने पर राजा लांग, अपने २ नगरों
 को चले गए और प्रद्युम्न भी वैदर्भीको लेकर द्वारकाको चला
 गया ॥ ८ ॥ और वह वीर उस स्त्रीके साथ, नलने जैसे दम-
 यन्तीके साथ रमण किया था तिस प्रकार, रमण करने लगा,
 उसमें उसने देवताओंके बालरुकी समान पुत्रको उत्पन्न किया ९
 वह अनिरुद्ध नामसे मसिद्ध हुआ पृथ्वीमें उसके कर्म अप्रतिम
 थे वह धनुर्वेद वेद और नीतिशास्त्र पारगमन होगया ॥ १० ॥
 हे राजन् ! जब अनिरुद्ध अवस्थामें आगया तब उसने रुक्मी-
 की पौत्री सुभणकी समान शोभा वाली रुक्मवती नाम वाली
 कन्याको अपनी पत्नी बनाना चाहा ॥ ११ ॥ उस समय राजा
 रुक्मिणे अनिरुद्धके गुणोंके कारण प्रद्युम्नकी प्रीतिके कारण
 और रुक्मिणीके आग्रहके कारण (अपनी रुक्मिणी) देनेका विचार

धीनिमान् जनमेजय ॥ १३ ॥ केशवः सह रुक्मिण्या पुत्रैः सकर्ण-
 णेन च । अन्यैश्च वृष्णिभिः सार्धं विदर्भान् सबलो ययौ १४
 संयुक्तः ज्ञानमश्चैव रुक्मिणः सुहृदश्च ये । आहूता रुक्मिणा
 तेषु तवाङ्गमुर्नराग्निपाः ॥ १५ ॥ शुभे तिथौ महाराज नक्षत्रे
 चाभिपूजिते । विवाहः सोऽनिरुद्धस्य बभूव परमोत्सवः ॥ १६ ॥
 पाणौ गृहीते वीदर्भ्यास्त्वनिरुद्धेन तत्र वी । वीदर्भ्यादवानां च
 बभूव परमोत्सवः ॥ १७ ॥ रेमिरे वृष्णगस्तत्र पूज्यमाना यथा-
 ऽगराः । अश्वमेधानामपिषो वेणुदारिरुदार्याः ॥ १८ ॥ अन्नः
 श्रुतर्षा चाखूरः काशश्चैत्रांशुमानपि । जघत्सेनः कलिगानामभि-
 पक्ष महाबलः ॥ १९ ॥ पाण्डवश्च नृपतिः धीमानृषीकाधिपति-
 स्तथा । एते सम्पन्ने राजानो दाक्षिणात्या महर्षयः ॥ २० ॥

कर लिया ॥ १२ ॥ हे जनमेजय ! वह महायशस्वी श्रीकृष्णसे
 सार्धं किया, करता था तब भी उसने प्रसन्न होकर मैं दूंगा यह
 वचन कहा ॥ १३ ॥ केशव रुक्मिणीको अपने पुत्रोंको बल-
 देवजीको दूमरे वृष्णिगोंको और अपनी सेनाको साथमें लेकर
 विदर्भ देशोंको चले ॥ १४ ॥ उधर रुक्मीने भी अपनी जाति
 वालोंको और मित्रोंको बुलाया रुक्मीके हुलाने पर वे राजे भी
 तहाँ पर आगए ॥ १५ ॥ तब हे महाराज ! शुभतिथि और प्रशस्त
 नक्षत्रमें अनिरुद्धके विवाहका बड़ा भारी उत्सव हुआ ॥ १६ ॥
 जब अनुरुद्धिने वीदर्भिके हाथको पकड़ा तब वीदर्भोंमें और पाण्ड-
 वोंमें बड़ा भारी आनन्द मनाया गया ॥ १७ ॥ तहाँ पर वृष्णि-
 वंशी पूजा पाकर देवतार्थोंकी समान आनन्द करने लगे, इसके
 अनन्तर अश्वकोंके राजा महाबुद्धि वेणुदारि, अन्न, श्रुतर्षा,
 चाखूर, काश, अयुमान्, रगिद्धोंके राजा महाबली जघत्सेन,
 धीमान् पाण्डवगण और ऋषीकराज इन सब समृद्धिमान्
 दाक्षिणात्यके राजाओंने सलाह की ॥ १८-२० ॥ और एकान्तमें

धर्मवित् । संक्रुद्धो धर्मिणां प्राप्य रोहिणेयो महाबलः ॥ ३५ ॥
धैर्यान्मनः सन्निधाय ततो वननपत्रवीत् । दशकोटिसहस्राणि
ग्लह एको ममापरः ॥ ३६ ॥ एनं संगरिगृह्णीष्व पातयात्ता-
न्नराधिप । कृष्णान्नाञ्जलोहितान्नाथ देशेस्तिगस्त्वधिगांसुले ३७
इत्येवमाहगामास रुक्मणं रोहिणीसुतः । अनुत्तवा वचनं किञ्चि-
द्वादमित्यब्रवीत् पुनः ॥ ३८ ॥ अन्तान् रुक्मी ततो हृष्टः पातया-
मास पार्थिवः । ज्ञातुरन्ते तु निर्दत्ते निर्जितः स नराधिपः ३९
बलदेवेन धर्मेण नेत्युवाच ततो बलम् । धैर्यान्मनः समाधाय स

सुन कर ॥ ३४ ॥ रोपको जीतने वाले भी धर्मात्मा बलदेवजी
ने क्रोध किया रोहिणीनन्दन महाबली बलदेवजी आक्षेप होने
पर क्रोधमें भर गए ३५ तब भी उन्होंने अपने मनमें धीरज धर
यह बात कही, कि-यह दश करोड़ हजारका मेरा एक दौंव और
रहा ३६ हे राजन् ! तुम इस दौंवको ग्रहण करो और इस धूल
उड़ाने वाले समयमें काले फोंसोंको और लाल फोंसोंको
फेंके ३७ इस प्रकार रोहिणीपुत्रने रुक्मीसे कहा तब रुक्मीने
और कुछ न कह कर बहुत अच्छा फिर कहा ३८ तब राजा
रुक्मीने प्रसन्न होकर फोंसे फेंके और चारके अंक वाले फाँसेके
गिरने पर वह राजा हार गया (दोनोंके धनको दश भागमें
बाँटने पर यदि वादी एकके अरु वाले फाँसेको गिरा देता है
तो उस धनमेंसे धनके एक अंशको लेलेता है दोके अंक वाले
फाँसेको गिराने पर पहले धनके साथ उस धनमेंसे तीन अंशों
को लेलेता है और तीनके अंक वाले फाँसेके गिराने पर पहले
तीन अंशोंके साथ छः अंशोंको भी लेलेता है और चारका अंक
वाले फाँसेको गिराने पर पहले छः अंशोंके साथ दश अंशोंको
हर लेता है इस प्रकार जुपको जानने वालोंकी मन्नादाक अष्टवार
बलदेवजीने सब धनको जीत लिया) ३९ जब बलदेवजीने धर्म

न किंचिदुभयं ह ॥ ४० ॥ बलदेवं ततो रुक्मी मया जितमिति
 स्मयन् । बलदेवस्तु तच्छ्रुत्वा जिह्वां वाक्यं नराधिप ॥ ४१ ॥
 भूयः क्रोधसगाविष्टो नोत्तरं व्याजहार ह । ततो गम्भीरनिर्घोषा
 वायुवाचाशरीरिणी ॥ ४२ ॥ बलदेवस्य तं क्रोधं वर्धयन्ती महा-
 त्मनः । सत्यमाह बलः श्रीमान् धर्मैषैष पराजितः ॥ ४३ ॥
 अनुक्त्वा वचनं किंचित् प्राप्तो भवति कर्मणा । मनसा समनुज्ञातं
 तत् स्यादित्यवगम्यताम् ॥ ४४ ॥ इति श्रुत्वा वचस्तद्धमन्त-
 रिज्ञात् सुभाषितम् । संकर्षणस्तथोत्थाय सौवर्णनोरुणा बली ४५
 रुक्मिण्या भ्रातर व्येष्टं निजघानमहीतले । निवादे कुपितो
 रामः क्षेप्तारं किल रुक्मिणम् । जघानाष्टापदेनैव प्रमध्य यदु-

पूर्वक इस बातको कहा तब उसने कहा, कि-नहीं यह बात नहीं
 है बलदेवजीने इस पर भी अपने मनमें धैर्य रख कर कुछ भी
 नहीं कहा ४० मैंने बलदेवजीको जीत लिया यह कह कर रुक्मी
 मुस्कुराने लगा, हे राजन् ! उस कुटिल वाक्यको सुन कर बलदेव
 जी फिर क्रोधमें भर गए परन्तु उन्होंने कुछ कहा नहीं इसी
 समय गम्भीर शब्द करने वाली आकाशनाली हुई ४१-४२ उस
 आकाशनालीने बलदेवजीके क्रोधको बढ़ा दिया (आकाशनाली
 ने कहा था कि -) श्रीमान् बलदेवजीने सत्य ही कहा था कि-
 मैंने इस राजा रुक्मीको धर्मपूर्वक जीत लिया है ४३ बलरामजीने
 कुछ नहीं कहा है यह राजे अपने मनमें कपट रखते हैं किंतु अपनी
 वाणीसे कपटका वर्ताव प्रकट नहीं करते हैं इस बातको तुम साष्ट
 समझ लो ४४ इस प्रकार अन्तरिज्ञसे सत्य वचनको सुन कर
 बलदेवजी उठे और उन बलवान्ने सुवर्णके अठपहलू बड़े भारी
 अस्त्रसे रुक्मिणीके बड़े भाईको पृथ्वीतलमें (गिरा कर) मार
 डाला बलरामजी विवाद होने पर क्रोधमें भर गये थे यत्र यदु-
 नन्दनने आक्षेप करने वाले रुक्मीको अष्टापदसे धुँगल कर मार

नन्दनः ॥ ४६ ॥ ततोपसृत्य संकुद्रः कलिगात्रिपतेरपि । दन्तान्
वभञ्ज संरम्भादुन्ननाद् न सिंहवत् ॥ ४७ ॥ खड्गमुद्यम्य तान्
सर्वास्त्रासपापास पार्थिवान् । स्तम्भं सभायाः सौवर्णमुत्पाट्य
वलिनाम्बरः ॥ ४८ ॥ गजेन्द्र इव संस्तम्भं कर्पण संकर्षण-
स्ततः । निर्जगाम सभाद्वारात्त्रासयामास कैशिकान् ॥ ४९ ॥
रुक्मिणं निकृतिप्रज्ञं स हत्वा यादवर्षभः । वित्रास्य विद्रिपः
सर्वान् सिंहः क्षुद्रमृगानिव ॥ ५० ॥ जगाम शिविरं रामः स्वय-
मेव जनावृतः । न्ययेदयत् स कृष्णाय तत्र सर्वं यथाऽभवत् ५१
नोवाच स तदा कृष्णः किञ्चिद्रामं महाद्युतिः । निमृह्य च तदा-
त्मानं कृच्छ्रादश्रूणवर्तयत् ॥ ५२ ॥ न हतो वासुदेवेन यः पूर्वं
परवीरहा । ज्येष्ठो भ्राताथ रुक्मिण्या रुक्मिणीस्नेहकारणात् ५३

डाला था ४५-४६ इसके अनन्तर वह क्रोधमें भर कर उठे और
कलिङ्गराजके दाँतोंको तोड़ डाला और क्रोधमें भर कर सिंहकी
समान दहाड़ने लगे ४७ और अपनी तलवारको उठा कर सब
राजाओंको त्रास देने लगे तदनन्तर बलवानोंमें श्रेष्ठ बलरामजी
ने उस सभाके खम्भेको उखाड़ लिया ४८ तदनन्तर बलरामजी
उस स्तम्भको सिंहकी समान खँचते हुए सभासे निकल आए
और कैशिकोंको डराने लगे ४९ यादवोंमें श्रेष्ठ बलरामजी
कपटबुद्धि रुक्मीको मार कर छोटे २ मृगोंको डराने वाले सिंह
की समान अपने शत्रुओंको डराते हुए अपने आदिमियोंसे
गिरे हुए अपने शिविरमें पहुँच गये तहाँ जाकर उन्होंने
जिस प्रकार जो २ बात हुई थी वह कहकर सब सुनादी ५०।५१।
उस समय महाकान्तिमान् श्रीकृष्णने बलरामजीसे कुछ भी नहीं
कहा और अपनी आत्माको कठिनतासे रोककर आँसू वहाने
लगे ॥ ५२ ॥ रुक्मिणीके स्नेहके कारण शत्रुओंके वीरोंका नाश
करने वाले रुक्मिणीके जिस बड़े भाईको श्रीकृष्णने नहीं मारा

म रामकरमुक्तेन निहतो द्यूतमण्डले । अष्टापदेन बलवान् राजा
वज्रधरोपमः ॥५४॥ तस्मिन्हते महावीर्ये नृपती भीष्मकात्मजे ।
द्रुमभार्गवतुन्ये नै द्रुमभार्गवशिक्षिते ॥ ५५ ॥ कृतौ च युद्धकुशले
नित्ययाजिनि पातिते । वृष्णयथाधकाश्चैव सर्वे त्रिमसोऽभवन् ५६
वैशम्पायन उवाच । रुक्मिणी च महाभागा विलापन्त्यार्तया
गिरा । विलापन्ती तथा दृष्ट्वा मान्त्वगामास केशवः ॥ ५७ ॥
एतत्ते सर्वमाख्यातं रुक्मिणी निधनं यथा । वैरस्य च समुत्थान
वृष्णिभिर्भरतर्षभ ॥ ५८ ॥ वृष्णयोऽपि महाराज धनान्पादाय
सर्वशः । रामकृष्णौ समाश्रित्य परयुद्धारकां गति ॥५९॥

। इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि रुक्मिण्यो
नामैकपट्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥

राजोवाच । भूय एव तु विमर्षे बलदेवस्य धीमतः । माहात्म्यं

था वह इन्द्रकी समान बलवान् राजा द्यूतमण्डलमें बलरामजीके
हाथसे मारे हुए अष्टापदसे मारा गया ॥ ५४ ॥ उस महावीर
भीष्मकपुत्र द्रुम और परशुरामजीकी समान द्रुम और परशु
रामजीसे शिक्षा पाये हुए युद्धकुशल चतुर सर्वदा यज्ञ करनेवाले
राजा रुक्मीके मारे जाने पर सब वृष्णि और अन्धक जनमने
होगए ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-उस समय
महाभागा रुक्मिणी आर्तवाणीमें विलाप करने लगी उसको
विलाप करती हुई देख कर केशवने उसको दाढ़स दिया ५७
हे भरतर्षभ ! यह तुमसे वृष्णियोंके साथ और उठनेका और
रुक्मीके मरणका सब वृत्तान्त कह दिया ५८ हे महाराज ! तब
वृष्णि भी चारों ओरसे धन लेकर रामकृष्णका आश्रय ले
द्वारकापुरीको चले गए ५९ इसठवॉ अध्याय समाप्त ॥ ६१ ॥

राजाने कहा, कि-हे विमर्षे ! मैं पृथ्वीको धारण करने वाले
शेष (के अवतार) बुद्धिमान् बलदेवजीके माहात्म्यको फिर

श्रोतुमिच्छामि शेषस्य धरणीभृतः ॥ १ ॥ अतीव बलदेवं तं
 तेजोराशिगनिर्जितम् । कथयन्ति महात्मानं ये पुराणविदो जनाः-
 तस्य कर्माण्यहं विम श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । अनन्तं यं विदुः-
 नागमादिदेवं जनेश्वरम् ॥ ३ ॥ वैशम्पायन उवाच । पुराणे
 नागराजोऽसौ पृथ्वी धरणीधरः । शेषस्तेनोनिधिः श्रीमानकम्प्यः
 पुरुषोत्तमः ॥ ४ ॥ योगाचार्यो महावीर्यो देवमन्त्रमुखो बली ।
 जरासन्धं गदायुद्धे जितवान् यो न चावधीत् ॥ ५ ॥ बहवश्चैव
 राजानः पथिताः पृथिवीतले । अन्वयुर्मागधं सर्वे ते चापि
 विजिता रणे ॥ ६ ॥ नागायुतबलमाणो भीमो भीमपराक्रमः ।
 असकृद्बलदेवेन बाहुयुद्धे पराजितः ॥ ७ ॥ दुर्योधनस्य कन्या
 तु हरमाणो न्यगृह्यत । साम्बो जाम्बवतीपुत्रो नगरे नागसाहयेन
 राजभिः सर्वतो रुद्धो हरमाणो बलात् किल । तदुपश्रुत्य संरुद्ध

सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ जो पुराणको जानने वाले मनुष्य हैं
 वे महात्मा बलदेवजीको किसीके जीतनेमें न आये हुए तेजोराशि-
 रूप कहते हैं ॥ २ ॥ जिनको पुरुष अनन्त नाग आदिदेव कहते
 हैं उन जनेश्वरके कर्मोंको मैं सुनना चाहता हूँ ३ वैशम्पायनजी
 ने कहा, कि-यह बलदेवजी पुराणमें नागराज धरणीधर शेष
 तेजोनिधि श्रीमान् अकम्प्य और पुरुषोत्तम पढ़े जाते हैं और
 योगाचार्य महावीर्य देवमन्त्रमुख और बली (पढ़े जाते हैं), इन्हीं
 ने गदायुद्धमें जरासन्धको जीत कर भी उसको नहीं मारा था ५
 पृथ्वीतलके बहुतसे पसिद्ध राजे जो रणमें मागधके पीछे २ आये
 थे वे भी सब (इनसे) हार गए थे ॥६॥ जरासन्धमें एक लाख
 हाथियोंका बल था उस भयंकर और भयंकर पराक्रम करने
 वाले जरासन्धको बलदेवजी बाहुयुद्धमें अनेक बार हराया ॥ ७ ॥
 जाम्बवतीका पुत्र साम्ब इस्तिनापुरमें दुर्योधनकी कन्याका हरण
 कर रहा था तब सब राजाओंने उसको चारों ओरसे रोक लिया

आजगाम महाबलः ॥ ६ ॥ रामस्तस्य तु मोक्षार्थमागतो नाल-
 भञ्च तम् । ततश्चुक्रोध बलवानद्भुतं चाकरोन्महत् ॥ १० ॥
 अनिवार्यमभेद्यं च दिव्यमप्रतिमं बले । लांगलास्त्रं समुद्यम्य
 ब्रह्ममन्त्राभिमन्त्रितम् ॥ ११ ॥ माकारवभे विन्यस्य पुरस्य च
 महाद्युतिः । प्रक्षेप्तुमैच्छद्गंगायानं नगरं कौरवस्य तत् ॥ १२ ॥
 तद्विधूर्णितमालक्ष्य पुरं दुर्योधनो वृषः साम्बं निर्घातयामास
 सभार्य तस्य धीमतः ॥ १३ ॥ ददौ शिष्यं तदात्मानं रामस्य
 सुमहात्मनः । गदायुद्धे कुरुगतिं शिष्यं जग्रह तं च सः ॥ १४ ॥
 ततः प्रभृति राजेन्द्र पुरमेतद्विधूर्णितम् । आवर्जितमिवाभाति गंगा-
 गभिमुखं वृष ॥ १५ ॥ इदमत्यद्भुतं कर्म रामस्य कथितं भुवि ।
 भाण्डीरे कथितं राजन् यत् कृतं शौरिणा पुरा ॥ १६ ॥ प्रलंबं

या इस बातको सुन कर महाबली बलदेवजी तहाँ गए ६ बल-
 रामजी उसको छुड़ानेके लिये गए थे, परन्तु वह उसको न छुडा
 सके, तब तो वह बलवान् क्रोधमें भर गए और उन्होंने अद्भुत
 कार्य किया ॥ १० ॥ उन्होंने अनिवार्य और किसीसे दूटनेमें न
 आने वाले बलमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मास्त्रसे अभिमन्त्रित अपने दिव्य
 लांगलास्त्रको उठा कर उसको नगरके परकोटेकी दीवार पर
 रखा इसके उपरान्त महाबली बलदेवजीने उस कौरवनगरको
 गङ्गाजीमें फेंकना चाहा ॥ ११ ॥ १२ ॥ अपने नगरको खिचता
 हुआ देख कर राजा दुर्योधनने साम्ब और उसकी भार्याको
 छोड़ दिया और उनका बुद्धिमान बलदेवजीके पास ले गया १३
 और अपने आप महात्मा बलरामका शिष्य बनना चाहने
 लगा, बलदेवजीने भी उस कुरुगतिको गदायुद्धमें अपना
 शिष्य बना लिया ॥ १४ ॥ हे राजेन्द्र! उसी दिनसे यह खिचा
 हुआ नगर गङ्गाजीकी ओर झुका हुआ दीखता है ॥ १५ ॥
 बलरामजीका पृथ्वीमें किया हुआ यह अद्भुत कर्म तुमसे कह

सृष्टिर्नैकेन यज्जघान हलायुधः । धेनुकं तु महावीर्यं नित्येप नग-
 मूर्धनि । स गतायुः पपातोऽर्था दैत्यो गर्दभरूपधृक् ॥ १७ ॥
 लवणजलगमा महानदी द्रुतजलवेगतंरंगमालिनी । नगरमभिमुखं
 यदा हृगा हलविधुता यमुना यमस्वसा ॥ १८ ॥ बलदेवस्य माहा-
 त्म्यमेतत्ते कथितं मया । अनन्तस्वामप्रमेयस्य शेषस्य धरणीभृतः
 इति पुरुषवरस्य लांगलोर्वहुविधमुत्तममन्यदेव च । यदकथित-
 मिहाद्य कर्म ते तदुपलभस्व पुराणविस्तरात् ॥ २० ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि बलदेव-

माहात्म्यं नाम द्विपष्टिनमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥

जनमेजय उवाच । प्रत्येत्य द्वारकां विष्णुर्हते रुक्मिणि वीर्य-
 बान् । अकरोद्यन्महाबाहुस्तन्मे वद महामुने ॥ १ ॥ वीशम्पायन

दिया इससे पहले बलगमजीने जो कर्म किया था, वह भाण्डीर
 की कथा तुम्हें पहले ही सुनादी थी, कि-॥ १६ ॥ बलदेवजीने
 एक मुक्ता मार कर ही प्रलंब राक्षसको मार डाला था और
 वीर्यवान् धेनुकको पवतके शिखर पर पटक दिया था तब वह
 गर्दभका रूप धारण करने वाला दैत्य मर कर पृथिवीमें गिर
 पड़ा था ॥ १७ ॥ नमकीन जल वाले समुद्रकी ओर जानेवाली
 वेगसे बहने वाले जलके तमझोंकी माला वाली यमकी छोटी
 बहिन यमुना नदीको इन्होंने अपना हल डाल कर नगरकी ओर
 खेंच लिया था ॥ १८ ॥ पृथिवीको धारण करने वाले अनन्त
 अप्रमेय शेषजीके अक्षर बलदेवजीका यह माहात्म्य मैंने तुमसे
 कह दिया ॥ १९ ॥ लांगलका आयुध धारण करने वाले पुरुष-
 श्रेष्ठ बलदेवजीका यह अनेक प्रकारका उत्तम चरित्र तथा मैंने
 जो तुमसे नहीं कहा है उनके उस कर्मको भी तुम पुराणोंसे
 विस्तारपूर्वक जान सकोगे २० वासठवाँ अध्याय समाप्त ६२
 जनमेजयने कहा, कि-हे महामुने ! रुक्मीके मारे जाने पर

उवाच । स तैः परितृतः श्रीमान् पुरीं यादवनन्दनः । द्वारकां
 भगवान् विष्णुः प्रत्यवेत्तत वीरवान् ॥ २ ॥ प्रत्यपघ्नत रत्नानि
 त्रिविधानि वमूनि च । यथाहं पुण्डरीकाक्षो नैर्ऋतान् प्रत्यवार-
 यत् ॥ ३ ॥ तत्र विघ्नं चरन्ति स्म दैतेयाः सह दानवैः । ताञ्ज-
 घान महाबाहुर्वरदत्तान् महासुरान् ॥ ४ ॥ विघ्नं चास्याकरोत्तत्र
 नरको नाम दानवः । त्रासनः सर्वदेवानां देवराजरिपुर्महान् ५
 स यथा मूर्तिलिंगस्थः सर्वदेवाधिवाषिता । देवतानामृषीणां च
 मतीपमकरोत्तदा ॥ ६ ॥ त्वष्टुर्दुहितरं भीमः कशेरुगमत्तदा । गज-
 रूपेण जग्राह रुचिराङ्गीं चतुर्दशीम् ॥ ७ ॥ प्रमथ्य तां वरारोहां

महाभुज वीरवान् श्रीकृष्णने द्वारकामें आकर जो कर्म किया हो
 उसका वर्णन करिये ॥ १ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-यादव-
 नन्दनः श्रीमान् भगवान् विष्णुने यादवोंके साथ द्वारकामें पहुँचने
 के अर्न्तर्तः उसका चौरों ओरसे निरीक्षण किया ॥ २ ॥
 पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णने उचित रीतिसे धन और अनेक प्रकारके
 रत्न पाये थे उनकी राजसोंसे रत्नाकर अपने घरमें लाकर स्था-
 पित कर दिया ॥ ३ ॥ दितिके पुत्र दानवोंके साथमें लेकर बड़ा
 उपद्रव गचाते थे, महाभुज श्रीकृष्णने उन बरके कारण अभिमान
 में भरो हुए बड़े २ राजसोंको मार डाला ॥ ४ ॥ एक नरक
 नामक दानव था उसने श्रीकृष्णके कार्यमें विघ्न डाला वह सब
 देवताओंको डराया करता था और देवराजका बड़ा भारी शत्रु
 था ॥ ५ ॥ वह सब देवताओंको पीड़ा दिया करता था और
 मूर्तिलिंगस्थ था अर्थात् दृश्यज्ञापक मूर्तिलिंगमें स्थित था और
 उस समय वह देवता और ऋषियोंको पीड़ित करने लगा ६ वह
 कशेरु (स्थान)को गया तहाँ जाकर उसने त्वष्टाकी पुत्री (गर्भ,
 कौमार, पौण्ड्र; सन्धि, यौवन आदि दशसे ऊपर पन्द्रहसे
 पहली अर्थात्), चौदह वर्षकी सुन्दर अङ्गो बाली कन्याको हाथी

नरको वाक्यमब्रवीत् । नष्टशोकमयो गोहात् प्राग्ज्योतिषपति-
स्तदा ॥८॥ यानि देवमनुष्येषु रत्नानि त्रिविधानि च । विपति
ष मही कृत्स्ना सागरेषु च यदसु ॥ ९ ॥ अथ प्रभृति तानीह
सहिनाः सर्वनैर्भृताः । ममैवोपाहरिष्यन्ति दैत्याश्च सह दानवैः
एवमुत्तमरत्नानि वस्त्राणि विविधानि च । स जहार तदा भौम-
स्तश्च नाथिचकार सः ॥ ११ ॥ गन्धर्वाणां च याः कन्या जहार
नरको बली । याश्च देवमनुष्याणां सप्त चाप्सरसां गणाः ॥ १२ ॥
चतुर्दश सहस्राणि एकविंशच्छतानि च । एकवेणिधराः सर्वाः
सतीमार्गमनुव्रताः ॥ १३ ॥ वैशम्पायन उवाच । तासां पुरवरं
भौमो कारयन् पणिपर्वतम् । अलकायामदीनात्मा सुरोः स्वाविषयं
प्रति ॥ १४ ॥ ताश्च प्राग्ज्योतिषपतिं सुरोरचैव दशात्मजाः ।

का रूप धर कर पकड़ लिया ॥७॥ उस नरकासुरका शोक और
धय नष्ट होगया था ऐसे उस प्राग्ज्योतिषदेशके स्वामीने मोह
के भर कर उस वरारोहा कन्यासे बलपूर्वक कहा, कि-॥ ८ ॥
देवता और मनुष्योंके पास अनेक प्रकारके जितने रत्न हैं और
पृथिवीमें जितने रत्न हैं और समुद्रोंमें जितना धन है ॥ ९ ॥
उस सब धनको आज रातस दैत्य और दानवोंको लेकर मेरे
पास ले आवेंगे ॥ १० ॥ इस प्रकार कहनेके बाद उस भौमासुर
ने अनेक प्रकारके वस्त्र और रत्नोंको भर लिया परन्तु तब भी
उनका भोग नहीं किया गया ॥ ११ ॥ और बलवान् नरकने
गन्धर्वोंकी मनुष्योंकी और सात अप्सराओंके गणमेंसे जिन
कन्याओंको हर लिया था ये सब एकवेणिधरा थीं अर्थात्
कूपारियें थीं ॥ १२ ॥ १३ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि अदीन
आत्मावाले भौमासुरने मुकनामक दानवके देशके पास अलका-
पुरीमें उन स्त्रियोंके लिये पणियोंके द्वेर वाला श्रेष्ठ नगर बसा
दिया ॥ १४ ॥ वे स्त्रियें और मुक्य २ रातस उस नगरीकी

नैर्ऋताश्च यथा मुखन्याः पालयन्त उपासते । स एष तपसः
 पारे वरदत्तो महासुरः ॥१५॥ न चासुरगणैः सर्वैः सहितैः कर्म
 तत् पुरा । कृतपूर्वं तदा घोरं यदकार्षीन्महासुरः ॥१६॥ अदितिं
 धर्षयामास कुण्डलार्थं महासुरः । यं मही सृष्टुवे देवी यस्मि
 माग्ज्योतिषं पुरम् ॥ १७ ॥ द्वारपालाश्च चतुर्वारस्तस्यासन् युद्ध-
 दुर्मदाः । हयग्रीवो निमुन्दश्च वीरः पञ्चनदस्तथा ॥१८॥ मुरुः
 पुत्रसहस्रैश्च वरदत्तोऽसुरो महान् । आदेययानमावृत्य पन्थानं
 समुपधिगतः । विनासनः सुकृतिनां विरूपै राक्षसैः सह ॥१९॥
 तद्वधार्थं महाबाहुः शंखचक्रगदासिभृत् । जाते वृष्णिषु देवक्यां
 वसुदेवाज्जनार्दनः ॥२०॥ तस्याथ पुरुषेन्द्रस्य लोकप्रधिततेजसः ।
 निवासो द्वारका देवीरूपायादुपपादिता ॥ २१ ॥ अतीव हि पुरी

रक्षा करते हुए उसकी उपासना करते थे इस प्रकार वह अभि-
 मानी दानव नीले वर्णवाले समुद्रके पार रहता था ॥ १५ ॥ उस
 वड़े भारी असुरने जिस घोर कर्मको किया था उस कर्मको
 असुरोंके सब गण भी पहले न कर सके थे ॥ १६ ॥ उस महा-
 राक्षसने कुण्डलोंके लिये अदितिको दबाया था पृथिवी देवीने
 जिसको उत्पन्न किया था और प्राग्ज्योतिषपुर जिसका मगर
 है उसके हयग्रीव निमुन्द, वीर और पञ्चनद नाम वाले युद्धदुर्मद
 चार द्वारपाल थे ॥१७॥१८॥ मुरु दैत्य भी बड़ा भारी राक्षस
 था उसको देवताओंने वर दिया था वह पुण्यआत्माओंको कष्ट देने
 वाला अपने कुरूप सबसभ राक्षस पुत्रोंको साथमें लेकर देवयानके
 मार्गको घेरकर खड़ा होगया था १९ उसका वध करनेके लिये ही
 शङ्ख चक्र और गदाके धारण करने वाले महाभुव्र जनार्दन
 श्रीकृष्ण वसुदेवसे देवकीमें वृष्णिवंशमें उत्पन्न हुए थे २० लोकमें
 प्रसिद्ध तेजवाले उन पुरुषेन्द्रके निवासके लिये द्वारकाको देवताओं
 ने उपाससे रक्षा था ॥२१॥ द्वारकापुरी इंद्रके भवनसे भी अति

रम्या द्वारकावासवक्षयात् । महार्णवपरिक्षिप्ता पञ्च पर्वत-
 शोभिता ॥ २२ ॥ तस्यां देवपुराभायां सभा-कांचनतोरणा ।
 सा दाशाहींति विख्याता-योजनायामविस्तृता ॥ २३ ॥ तत्र
 वृष्यगन्धकाः सर्वे रामकृष्णपुरोगमाः । लोकयात्रामिमां कृत्स्नां
 परिरक्षन्त आसते ॥ २४ ॥ तत्रासीनेषु सर्वेषु कदाचिद्भरतर्षभ ।
 दिव्यगन्धो वर्षा वायुः पुष्पवर्ष पपात-ह-॥ २५ ॥ ततः किल
 किलाशब्दः प्रभाजालामिसंवृतः । सुहूर्तमन्तरिक्षेऽभ्युत्ततो भूमौ
 प्रतिष्ठितः ॥ २६ ॥ मध्ये तु तेजसस्तस्य पाण्डुरङ्गजमास्थितः । इतो
 देवगणैः सर्वैर्वासवः समदृश्यत ॥ २७ ॥ रामकृष्णौ च-राजा
 स-वृष्यगन्धकगणैः सह । प्रत्युद्ययुर्महात्मानं पूजयन्तः सुरेश्वरम्
 सोऽवतीर्ण-गजात्तूर्णं परिष्वज्य जनार्दनम् । सस्वजे बलदेवं च

रमणीय थी समुद्रकी लहरें उस पर टक्कर मारती थीं तथा वह
 पाँच पर्वतोंसे शोभित थी ॥ २२ ॥ देवनगरकी समान उस पुरीमें
 सुवर्णके तोरणों वाली चार कोसमें फैली हुई सभा थी वह
 दाशाहीं नामसे प्रसिद्ध थी ॥ २३ ॥ तहाँ पर सब वृष्यवंशी
 अन्धकवंशी रामकृष्ण आदि अपनी सारी लोकयात्राकी रक्षा
 करते हुए तहाँ रहते थे ॥ २४ ॥ हे भरतर्षभ ! एक समय तहाँ
 पर सब नीठे हुए थे इतनेमें ही दिव्य गन्धवाला वायु बहने
 लगा और पुष्पोंकी वर्षा होने लगी ॥ २५ ॥ तदनन्तर प्रभाके
 जालसे घिरा हुआ किलकिल शब्द अन्तरिक्षमें होने लगा
 और क्षणभरमें ही भूमिमें प्रतिष्ठित होगया ॥ २६ ॥ उस तेजके
 बीचमें सम्पूर्ण देवताओंसे घिरा हुआ और श्वेत वर्णके हाथी
 पर बैठा हुआ इन्द्र दिखाई दिया तब बलराम और श्रीकृष्ण
 राजा उग्रसेन तथा वृषिण और अन्धक यह सब महात्मा इन्द्रकी
 पूजा करते हुए उसके पास गए तब तो इन्द्र शीघ्रतासे हाथी
 पर से उतर पड़ा और उसने श्रीकृष्णको आलिंगन किया बल-

तं च राजानमाहुकम् ॥ २६ ॥ वृष्णीनन्यान् सस्वजे च यथा-
 कालं यथा वयः । पूजितो रामकृष्णाभ्यामाविवेश स तां सभाम्
 तत्रासीनोऽभ्यलंकृत्वा सभां ताममरेश्वरः । अर्घादिसमुदाचारं
 प्रत्यगृह्णाद्यथा विधि ॥ ३१ ॥ वैशम्पायन उवाच । अथोवाच
 महातेजा वासवो वासवानुजम् । सान्त्वपूर्वं करेणास्य संस्पृशन्
 वदनं शुभम् ॥ ३२ ॥ देवकीनन्दनवचः शृणु मे मधुसूदन । येन
 त्वाऽभिगतोस्म्यद्य कार्येणामित्रकर्षण ॥ ३३ ॥ नैर्ऋतो नरको
 नाम ब्रह्मणो वरदणितः । अदित्याः कुण्डले मोहाज्जहार दिति-
 नन्दनः ॥ ३४ ॥ देवानां विप्रिये नित्यमृषीणां च स वर्तते ।
 तं च देवान्तरं मेक्ष्य जहि त्वं पापपूरुषम् ॥ ३५ ॥ अयं त्वां गरु-
 ढस्तत्र प्रापयिष्यति कामगः । कामवीर्योऽतितेजस्वी नैनतेयो-

देवकीको आलिंगन किया और राजा उग्रसेनके भी आलिंगन
 किया ॥ २७-२६ ॥ उन्होंने अवस्था और समयके अनुसार,
 वृष्णियोंको भी आलिंगन किया तदनन्तर राम कृष्णसे पूजा
 पाकर वह उस सभामें बैठ गया ॥ ३० ॥ तहाँ पर बैठे हुए देवेश
 ने उस सभाको अलंकृत कर अर्घ्य आदिको शास्त्रानुसार ग्रहण
 किया ॥ ३१ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-तदनन्तर महातेजस्वी
 इन्द्रने इन्द्रके अनुजके ऊपर सान्त्वनाके साथ अपने शुभ हाथको
 फेरते हुए कहा, कि-॥ ३२ ॥ हे अमित्रकर्षण देवकीनन्दन
 मधुसूदन ! मैं जिस कार्यके लिये आपके पास आया हूँ, उस
 मेरे वचनको सुनिये ॥ ३३ ॥ एक नरक नामका असुर है उस
 दितिनन्दनने ब्रह्माजीके वरसे अभिमानमें भर मोहवश
 अदितिके कुण्डलोंको हर लिया है ॥ ३४ ॥ वह सदा देवता तथा
 ऋषियोंका अप्रिय करता रहता है आप उस देवविधनको देख
 कर उस पापात्माको मारिये ॥ ३५ ॥ यह इज्जानुसार विचरण
 करने वाले गरुड़जी आपको तहाँ लेजावेंगे, यह अतितेजस्वी हैं,

न्तरिक्षगः ॥३६॥ अवध्यः सर्वभूतानां भौमः स नरकोऽसुरः ।
निषूदयित्वा तं पापं त्रिषमागन्तुगहसि ॥३७॥ इत्युक्तः पुण्डरी-
काक्षो देवराजेन केशवः । प्रतिजज्ञे महाबाहुर्नरकस्य निवर्हणे
ततः सहैव शक्रेण शङ्खचक्रगदासिभृत् । प्रतस्थे गरुडेनाथ सत्य-
भामासहायवान् ॥ ३६ ॥ क्रमेण स सस्कन्धान् स मरुतां सह
वासवः । पश्यतां यदुसिंठानामूर्ध्वमाचक्रमे वली ॥ ४० ॥ वार-
खेन्द्रगतः शक्रो गरुडस्थो जनार्दनः । विदूरत्वात् प्रक शोते सूर्गा-
चन्द्रमसाचिव ॥ ४१ ॥ अन्तरिक्षे च गन्धर्वैरप्सरोभिश्च केशवः ।
स्तूयमानोऽथ शक्रश्च क्रमेणान्तरधीयत ॥ ४२ ॥ समावायेति
कर्तव्यं वामत्रो विद्युदाधिपः । स्वमेव भवनं प्रायात् कृष्णः
प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ ४३ ॥ पन्नानिलइतो वायुः प्रतिलोमं वनौ

इनमें इच्छानुमार वीर्य आजाता है और यह विनयानन्दन अन्त-
रिक्षचारी है ॥३६॥ भूमिका पुत्र वह नरकासुर सब प्राणियोंसे
अवध्य है, आप उस पापीको मार कर शीघ्र ही आइये ३७
देवराज इन्द्रने पुण्डरीकाक्ष केशवसे इस प्रकार कहा, तब
महाभुज श्रीकृष्णने नरकासुरको मारनेकी प्रतिज्ञा की ॥ ३८ ॥
उस समय शंख चक्र और गदाकी धाण करने वाले श्रीकृष्ण
सत्यभामा और इन्द्रको साथमें लेकर चले ॥ ३९ ॥ वल्लभान्
श्रीकृष्ण यदुसिंहोंके देखते २ इन्द्रके साथ क्रमशः वायुके सात
परदों पर चढ़ गए ॥ ४० ॥ हस्तिराज (ऐरावत) पर बैठे
हुए इन्द्र और गरुड पर बैठे हुए श्रीकृष्ण दूर होनेके कारण
सूर्य और चन्द्रमाकी सगन शोभा पाने लगे ॥ ४१ ॥ अन्तरिक्ष
में पहुँचने पर गंधर्व और अप्सराएँ केशव और इन्द्रकी स्तुति
करने लगीं इस प्रकार वह क्रमशः अन्तर्धान होगए ॥ ४२ ॥
देवराजोंका स्वामी इन्द्र श्रीकृष्णको कर्तव्यकर्म बता कर अपने
भवनको चला गया और श्रीकृष्ण प्राग्ज्योतिष नगरको चले

तदा । ततो भीमरवा मेघा बभ्रमुर्गगनेचराः ॥ ४४ ॥ क्षणेन स-
 मनुगाप्तो द्विजेनाकाशगेन वै । दूरादेव च तान् दृष्ट्वा प्रययौ यत्र
 ते स्थिताः ॥ ४५ ॥ अपरगद्द्वारि तत्रस्थां हस्त्यश्वरथवाहिनीम् ।
 क्षुरान्तान्मौरवान् पाशान्पट्सहस्रान् ददर्श ह ॥ ४६ ॥ वैशम्पायन
 उवाच । गरुडस्योपरि श्रीगान्धर्वचक्रगदाधरः । विभ्रन्नीलाम्बु-
 दाकारं पीतवासाश्चतुर्भुजः ॥ ४७ ॥ वनमालाकुलोरस्कः श्रीवत्सा-
 क्तिभूषणः । किरीटमूर्धा सूर्यापः सविद्युदिव चन्द्रगाः ॥ ४८ ॥
 उषां चिकू नन्महाशब्दः श्रुतेऽग्निनिःस्वनः । ज्ञात्वा च दानवः
 सर्वे स्वर्गं विष्णुरिहागतः ॥ ४९ ॥ कोपाद् द्विगुणरक्ताक्षो मुरुः
 गए ॥ ४३ ॥ उनके पक्षसे पीड़ित हुआ वायु उस समय मति-
 लोमगतिसे चलने लगा । और आकाशमें भयंकर ध्वनि करने
 वाले मेघ आकाशमें फिरने लगे ॥ ४४ ॥ श्रीकृष्ण क्षणभरमें
 ही उस आकाशचारी पक्षीके कारण तहाँ पहुँच गए और दूरसे
 उन (मुरुके सैनिकों) को देखा और वे जहाँ खड़े थे तहाँ पहुँच
 गए ॥ ४५ ॥ तहाँ पर उन्होंने द्वार पर ही हाथी घोड़े और
 रथोंकी सेनाको देखा और मुरुदैत्यके वनाये हुए क्षुरकी सगान
 पनिसूक्ष्म । अतिदृढ़ अथयत्रसंयोग वाले पापाण आदिमें भी
 घुस कर काटने योग्य) पाशोंको (धारण करने वाले) छः
 सहस्र सैनिकोंको देखा ४६ वैशम्पायनजीने कहा, कि-गरुड
 पर बैठे हुए शंखचक्रगदाधारी, नीले मेघकी समान आकार
 वाले, पीले वस्त्र वाले, चार भुजा वाले, वनमालाओंसे व्याप्त
 वनःस्थल वाले श्रीवत्सके चिन्हसे भूषित, गस्तक पर मुकुट धारण
 करने वाले, सूर्यकी समान आभा वाले अथ एवं विजली वाले
 चन्द्रमाकी समान दीखते हुए श्रीमान् श्रीकृष्ण जब अपनी गत्यश्वा
 खेंचने लगे तब अग्निकी समान बड़ाभारी शब्द सुनाई दिया।
 तब दानवने जाना, कि विष्णु अपने आग ही यहाँ आगए

कालान्तकोपपः । अश्वघावत वेगेन शक्तिं गृह्य महासुरः ॥५०॥
 चित्तोप सुमहाशक्तिं वज्रकांचनभूषिताम् । तामापतन्ती शक्तिं तु
 महोत्कां ज्वलितामिव ॥ ५१ ॥ समाधत्त शरं चैकं रुक्मपुङ्गवं
 जनार्दनः । द्विधाच्छिन्नत् क्षुरमेण वासुदेवः स वीर्यवान् ॥५२॥
 शक्तिं चिच्छेद तत्रासौ विद्युत्पुञ्ज इव ज्वलन् । पुनश्च क्रोध-
 रक्ताक्षो मुहुर्गृह्य महामदाम् ॥ ५३ ॥ इन्द्राशनिरिवेन्द्रेण विकृष्ट
 इव निःस्वनः । आकर्ण्यमुक्तं चित्तोप अर्धचन्द्रं सुरोत्तमः ॥५४॥
 मध्यदेशे तु चिच्छेद गदां तां रुक्मभूषिताम् । पुनश्चिच्छेद भन्तलेन
 दानवस्य शिरो रणे ॥५५॥संखिद्य पाशान् सर्वास्तान् मुरुं हत्वा
 सवान्धवम् । सोग्रयान्क्षोगणान् हत्वा नरकस्य महावलान् ५६
 शिलासङ्घानतिक्रम्य भगवान् देवकीसुतः । अपरमदानवं सैन्यं

है ॥ ४७-४८ ॥ उस समय कालकी समान मुरु दैत्यके नेत्र
 क्रोधके कारण दुगने लाल होगए और वह बड़ा भारी असुर
 शक्तिको उठा कर वेगसे दौड़ा ॥ ५० ॥ और रत्न तथा सुवर्ण
 से भूषित उस महाशक्तिको वेगसे फेंका, बड़ी भारी मदीस
 उल्काकी समान उस महाशक्तिको आते देख कर जनार्दनने सुवर्ण
 की पूँछड़ी वाले एक बाणको चढ़ाया, वीर्यवान् वासुदेवने उस
 क्षुरप्र नामक बाणमे उस शक्तिके दो टुकड़े कर दिये ॥५१॥५२॥
 उस विजलीके पुञ्जकी समान जलते हुए बाणने उस शक्तिको
 काट दिया, तब तो क्रोधसे लाल ताल नेत्र वाले मुरु दानवने
 गदा उठा ली ॥ ५३ ॥ इतनेमें ही जैसे इन्द्रके वज्रको फेंकने
 पर शब्द होता है इसी प्रकार सुरश्रेष्ठ श्रीकृष्णके कान तक खँच
 कर छोड़े हुए बाणका शब्द हुआ ॥ ५४ ॥ उस समय देवकी-
 पुत्रने सब पाशोंको काट डाला और वान्धवोंसहित मुरुको भी
 मार डाला इस प्रकार उन्होंने नरकके महावली अग्ररत्नकोंको
 मार कर शिलाके ढेरोंके लींघनेके अनन्तर महावली निमुन्द

निसुन्दं च महाबलम् ॥ ५७ ॥ हयग्रीवं च दितिजं तथाऽन्या-
 धित्रयोधिनः । रोधयामास तन्मार्गं स्वसैन्येन महाबलः ॥५८॥
 निसुन्दो धलिनां श्रेष्ठो रथमारुह्य सत्वरम् । जग्राह कार्मुकं दिव्यं
 हेमपृष्ठं दुरासदम् ॥ ५९ ॥ विव्याध दशभिर्बाणैर्निसुन्दो मधु-
 सूदनम् । केशवश्चापि सप्तत्या विव्याध निशितैः शरैः ॥ ६० ॥
 अमातांश्रान्तरिक्षे तान् शरांश्चिच्छेद माधवः । ते सर्वे सैनिकाः
 कृष्ण समन्तात् पर्यवारयन् ॥ ६१ ॥ शरजालेन महता द्वाद्य-
 मानः सुरोत्तमः । दृष्ट्वा तान् दानवान् सर्वान् सक्रोधो मधुसूदनः
 ततो दिव्येन चास्त्रेण पार्जन्येन जनार्दनः । महता शरवर्षेण
 वारयामास तद्वलम् ॥ ६३ ॥ पंच पंचशरैस्तेषु एकैकेन च तान्
 बहून् । पार्जन्यस्य प्रभावेण सर्वान् मर्मस्वताडयत् ॥६४॥ दुदु-

दितिपुत्र हयग्रीव और दानवसेना तथा दूसरे भी चित्रयोधी
 योधाओंको देखा उस समय महाबली (निसुन्द) ने अपनी
 सेनासे उनके मार्गको रोक लिया ॥ ५५-५८ ॥ उस समय
 बलवानोंमें श्रेष्ठ निसुन्द सुवर्णकी पीठ वाले दुरासद दिव्य धनुष
 को ग्रहण कर शीघ्रतासे श्रेष्ठ रथ पर चढ़ गया ॥ ५९ ॥ तदनन्तर
 निसुन्द मधुसूदनको दश बाणोंसे घायल करना चाहने लगा
 तब केशवने भी उसके सत्तर तेज बाण मारे ॥ ६० ॥ और उसके
 जो बाण अभी तक उनके पास नहीं पहुँचे उनको माधवने
 आकाशमें ही काट डाला इसी समय सब सैनिकोंने कृष्णको
 चारों तरफसे घेर लिया ॥ ६१ ॥ देवताओंमें उत्तम श्रीकृष्ण
 पर जब बाणोंका बड़ा भारी जाल छागया उस समय मधुसूदन
 दैत्योंकी ओर देव क्रोधमें भर गए ६२ तदनन्तर जनार्दन
 दिव्य पार्जन्याहसे बाणोंकी बड़ी भारी वर्षा करके उस सेनाको
 हटाने लगे ६३ उनमेंसे पाँच व्यक्तियोंके तो उन्होंने पाँच २ बाण
 मारे और बहुतसोंके एक २ बाण मारा इस प्रकार पार्जन्य अस्त्र

दुर्भयसन्त्रस्ता भग्न्यास्ते दानवा रणे । स्वसैन्यं विद्रुतं दृष्ट्वा
 निश्चक्राग पुनर्मृधे ॥ ६५ ॥ विसृजञ्छ्वरवर्षाणि द्वादशभासास
 केशवम् । न विभाति रणे सूर्यो नापि व्योम दिशो दश ॥ ६६ ॥
 शरैः संद्वादयोपास निमुन्दो गरुडध्वजम् । सावित्रं नाम दिव्यास्त्रं
 जग्राह पुरुषोत्तमः ॥ ६७ ॥ तेन बाणैः तान् बाणांश्चिच्छेद
 समरे हरिः । बाणैर्बाणांश्च संच्छिद्य तस्य कृष्णो महाबलः ६८
 क्षत्रमेकेन बाणैः रथेषां च त्रिभिः शरैः । पुनश्चिच्छेद तान-
 श्वांश्चतुर्गिरन्तुरः शरैः ॥ ६९ ॥ सारथिं पञ्चभिर्बाणैर्ध्वजमेकेन
 चिच्छिदे । शरैःकेन त्रयुः कृष्णः सुतीक्ष्णैः शिमेन वै ॥ ७० ॥
 शिरश्चिच्छेद भल्लेन निमुन्दस्य सुरोत्तमः । यः सहस्रं समा-
 स्त्रेकः सर्वान् देवानयोभयत् ॥ ७१ ॥ निमुन्दं पतितं दृष्ट्वा हव-

के प्रभावसे सबके मर्मस्थानोंको ताड़ित किया ६४ उस समय
 दानव भयसे घबड़ा छिन्न भिन्न होकर भागने लगे, अपनी सेना
 को भागती हुई देख कर (निमुन्द) युद्ध करनेके लिये फिर
 निकल आया ६५ उस समय उसने बाणोंकी बौद्धार करके
 श्रीकृष्णको टुक दिया तब आकाशमें सूर्य दश दिशा और
 आकाश (आदि कुछ भी) नहीं दीखता था ६६ जब निमुन्द
 ने गरुडध्वज श्रीकृष्णको बाणोंसे द्वादश भासों तब पुरुषोत्तमने
 सावित्र नाम वाले दिव्य अस्त्रको ग्रहण किया ६७ हरिने समर
 में उस बाणसे उन बाणोंको काट डाला इस प्रकार महाबली
 श्रीकृष्णने अपने बाणोंसे उसके बाणोंको काटनेके अनन्तर ६८
 एक बाणसे उसके द्रवको तीन बाणोंसे उसके रथकी ईपाको
 और चार बाण मार कर उसके चारों घोड़ोंको भी काट
 डाला ६९ तदनन्तर श्रीकृष्णने पाँच बाणोंसे उसके सारथी
 को एक बाणसे उसकी ध्वजाको तथा एक तीखे बाणसे उसके
 शरीरको भी काट डाला ७० तदनन्तर देवताओंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण

ग्रीवः पतापवान् । शिलां प्रगृह्य महतीं तोलयामास दानवः ७२
 आविध्य सहस्रासुं चच्छिलां शैलसमां प्रभुः । गृहीत्वा दिव्य-
 पार्जन्यमस्त्रस्त्रविदां वरः ॥ ७३ ॥ दिव्यास्त्रेण शिलां विष्णुः
 सप्तधा कृततेजसा । तद्विदार्य महच्चारम पातयामास भूतले ७४
 ततस्तैः शार्ङ्गनिर्मुक्तैर्नानावर्णैर्महाशरैः । यथा देवासुरं युद्ध-
 मभवद्भरतर्षभ । नानाप्रहरणाकीर्णं तथा घोरमवर्तत ॥ ७५ ॥
 ततः शार्ङ्गनिर्मुक्तैर्नानावर्णैर्महाशरैः । गरुडस्थो महाबाहुर्नि-
 जघान महासुरान् ॥ ७६ ॥ महालांगलनिर्भिन्नाः शंखशक्ति-
 निपातिताः । विनेशुर्दानवाः सर्वे समासाद्य जनार्दनम् ७७ केचि-
 च्चक्राम्भिर्निर्दग्धा दानवाः पेतुरम्बरात् । संनिकर्षगताः केचिद्-

ने सहस्र वर्षों तक सब देवताओंसे युद्ध करने वाले निसुन्दके
 गस्तकको भञ्ज नामक बाण मार कर काट डाला ७१ हयग्रीव
 नामक पतापी दानव निसुन्दको गिरा हुआ देख कर बड़ी भारी
 शिलाको उठा कर जांचने लगा ७२ और उस शिलाको घुमा
 कर एक साथ श्रीकृष्णके ऊपर फेंका उस समय अस्त्रवेत्ताओं
 में श्रेष्ठ प्रभु श्रीकृष्णने पार्जन्य नामक दिव्य अस्त्रको ग्रहण
 किया ७३ अपने तेजको सात भागोंमें विभक्त करने वाले उस
 अस्त्रसे उस शिलाको विदीर्ण करके उस बड़े भारी पत्थरको
 पृथ्वीमें फेंक दिया ७४ तदनन्तर शार्ङ्ग धनुषमेंसे छूटते हुए
 अनेक वर्णक बड़े भारी बाणोंसे यह युद्ध अनेक प्रकारके आयुधों
 से घिरे हुए भयंकर देवासुर युद्धकी समान भयंकर रीतिसे होने
 लगा ७५ तदनन्तर गरुड़ पर बैठे हुए महाभुज श्रीकृष्ण शार्ङ्ग
 धनुषमेंसे अनेक वर्ण वाले बड़े २ अस्त्रोंको छोड़ कर बड़े २
 राक्षसोंका संहार करने लगे ७६ लांगलसे बहुत ही फटे हुए
 देह वाले शंखशक्तिरूप महानादसे गिराए हुए दानव जनार्दन
 को मास हो कर नष्ट होगए ७७ कोई २ दानव चक्रकी अग्निसे

गतासुविकृताननाः ॥ ७८ ॥ असृजञ्छरवर्षाणि वृष्टिमन्त इवा-
 म्बुदाः । विकृतांगासुराः सर्वे कृष्णवाणप्रपीडिताः ॥ ७९ ॥
 शोणिताक्ताः स्म दृश्यन्ते पुष्पिता इव किंशुकाः । व्यद्रवन्त
 सुवित्रस्ता भग्नास्त्राश्चित्रयोधिनः ॥ ८० ॥ पुनश्च क्रोध-
 रक्ताक्तो वायुवेगेन दानवः । दशव्यामोच्छ्रितं वृत्तं समारुह्य वन-
 स्पतिम् ॥ ८१ ॥ वृत्तमुत्पाट्य वेगेन प्रतिगृह्याभ्यधावत । चित्तोप
 सुमहावृत्तं शिक्तया, सुधनाकृतिः ॥ ८२ ॥ वृत्तवेगानिलोद्भूतः
 शुश्रुवे सुमहास्वनः । ततः शरसहस्रेण यतमानो जनार्दनः ८३
 नैकधा तं प्रविच्छेद चित्रभानुनिभाकृतिम् । पुनश्चैकेन वाणेन
 हयग्रीवस्य चोरसि ॥ ८४ ॥ विव्याध स्तनयोर्मध्ये सायको

भस्म होकर आकाशमेंसे नीचे गिरने लगे और कोई दानव
 श्रीकृष्णके पास पहुँच प्राण निकलजानेके कारण मुख बिगाड़ते
 हुए गिर पड़े ॥ ७८ ॥ कृष्णके बाणोंसे पीड़ित होनेके कारण
 जिनके अङ्ग बिगड़गए थे ऐसे असुर वर्षा बरसाने वाले
 मेघोंकी समान बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ७९ ॥ विचित्र
 युद्ध करने वाले असुर अस्त्रोंके टूट जानेसे घबड़ाकर भागने
 लगे उस समय रक्तसे न्हाते हुए असुर खिले हुए टेमूके
 वृत्तोंकी समान मालूम पड़ते थे ॥ ८० ॥ तदनन्तर क्रोधसे लाल
 ताल नेत्र वाले दानवने दश हाथ ऊँचे वृत्तको वायुवेगसे उखाड़
 लिया ॥ ८१ ॥ तदनन्तर बड़े भारी मेघकी समान आकृतिवाला
 वह दानव वृत्तको उखाड़ कर उसको लेकर दौड़ा और चतुरता
 से उस बड़े भारी वृत्तको फेंक दिया ॥ ८२ ॥ उस समय वृत्तके
 वेगसे उत्पन्न हुए वायुके झपाटेका ॥ बड़ा भारी शब्द सुनाई
 आया तदनन्तर जनार्दनने सहस्रों बाणोंसे यत्र कर अग्निकी
 समान आकृतिवाले उस वृत्तके टुकड़े करडाले इसके उपरान्त
 उन्होंने अग्निकी समान एक वाण हयग्रीवके वृत्तःस्तरमें स्तनोंके

ज्वलनप्रभः । विवेश सौऽतिवेगेन हृदं भित्वा त्रिनिर्गतः ॥८५॥
 तं जघान महाघोरं ह्यग्नीर्वं महाबलम् । अपारतेजा दुर्धर्षः स वी
 यादवनन्दनः ॥ ८६ ॥ मध्ये लोहितगंगस्य भगवान् देवकी-
 सुतः । औदकार्या विरूपाक्षं पाप्मानं पुरुषोत्तमः ॥ ८७ ॥ अष्टौ
 शतमहस्राणि दानवानां परन्तप । निहत्य पुरुषव्याघ्रः प्राग्ज्यो-
 तिषमुपाद्रवत् ॥८८॥ इत्वा पञ्चनदं नाम नरकस्य महासुरम् ।
 ततः प्राग्ज्योतिषं नाम दीप्यमानमिव श्रिया ॥ ८९ ॥ पुरमासा-
 दयामास युद्धं तत्राभवन्महत् । ततः प्रध्वापयच्छंखं पांचजन्यं
 महाबलः ॥ ९० ॥ शुश्रुवे सुमहाञ्शब्दः सम्बर्तनिनदो यथा ।
 ध्रुयते त्रिषु लोकेषु भीमगम्भीरनिःस्वनः । तं श्रुत्वा नरकधा-
 सीक्रोधसंरक्तलोचनः ॥९१॥ लोहवक्राष्टमंयुक्तं त्रिनन्वगतिमं
 वीचये मारो बह्वाण बडे भारी वेगसे उसके हृदयको फोड़
 कर निकल गया ॥ ८३ ८५ ॥ अपार तेजस्वी भगवान् देवकी-
 सुत दुर्धर्ष यादवनन्दनने इस प्रकार उस महाबली महाघोर पापी
 कुरूव नेत्रों वाले ह्यग्नीव दानवको लोहितगङ्गा नाम वाले समुद्रके
 प्रदेशविशेषके मध्यमें निराजमान जलकी खाई वाली पुरीमें मार
 डाला ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ हे परन्तप ! पुरुषव्याघ्र श्रीकृष्ण आठ
 लाख दानवोंको मार कर प्राग्ज्योतिषपुरकी ओर दौड़े ८८
 नरकासुरके पञ्चनद नामक बड़े भारी राक्षसको मार कर बड़
 अपनी कान्तिसे प्रकाशमान् प्राग्ज्योतिषपुरमें घुसे तहाँ पर बड़ा
 भारी युद्ध हुआ तदनन्तर महाबली श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य नामक
 शङ्खको बजाया ॥ ८९ ॥ ९० ॥ गम्भीर शब्द करने वाला उस
 गंखका बड़ा भारी शब्द प्रलपकालके मेघोंकी समान तीनों लोक
 में सुनाई दिया उसको सुन कर नरकासुरके नेत्र क्रोधसे लाल र
 होगए ॥ ९१ ॥ उसके रथमें लोहेके आठ पहिये लग रहे थे उस
 का रथ तीन नन्वक्रा था उसमें रत्नोंके और सुवर्णके निन्न वन

थम् । रत्नकांचनचित्राढ्यं वेदिकाभोगविस्तरम् ॥६२॥ वज्र-
वज्रेण महता काञ्चनेन विराजितम् । हेमदण्डपताकाढ्यं वैदूर्य-
पणिकूबरम् ॥६३॥ युक्तपशवसहस्रेण रथं पररथारुजम् । लोह-
गालैश्च संबद्धं चित्रभक्तिविराजितम् ॥६४॥ रथमध्यगतो वीरः
ससन्ध्य इव भास्करः । नानागहरणाकीर्णं रथं हेमपरिष्कृतम् ६५
वज्रं रथोररुद्धमिन्दुवर्णं व्यानद्धमुक्तानलतुल्यतेजाः । किरीट-
सूर्पाकंहुताशनाभः कर्णौ तथा कुण्डलयोज्वलन्तौ ॥६६॥ धूम्र-
वर्णा महाकाया रक्ताङ्गा विकृताचनाः । नानाकवचिनः सर्वे दैत्य-
दानवराजसाः ॥ ६७ ॥ खड्गचर्मधराः केचित् केचित्तूणधनु-
र्भृतः । शक्तिहस्तास्तथा केचिच्छूलहस्तास्तथापरे ॥६८॥ गज-

रहे थे उसमें बैठनेकी जगह बहुत बड़ी थी ॥ ६२ ॥ सुवर्णकी
वनी हुई बड़ी भारी वज्र-वजासे वह सुशोभित होरहा था सुवर्ण
के दंडे वाली पताकाएँ उसमें लगरही थीं उसका कूबर वैदूर्य-
पणियोंका बना हुआ था ॥ ६३ ॥ उसमें हजार घांड़े जुत रहे
थे और वह रथ दूसरोंके रथोंको तोड़ने वाला था लोहेकी
जालियोंसे ढका हुआ था चित्र त्रिचित्र सेवनीय पदार्थोंसे शोभा
पा रहा था ॥ ६४ ॥ ऐसे अनेक प्रकारके आयुधोंसे व्याप्त सुवर्ण
के बनाए हुए रथके बीचमें बैठा हुआ वह वीर संयाकालके
सूर्यकी समान प्रतीत होता था ॥ ६५ ॥ चन्द्रमाकी समान कान्ति
वाले वज्रसे वह रथके आगेके भागको ढका रहा था उसके मस्तक
पर किरीट लग रहा था इसमें उमकी कान्ति मूर्ति और अग्नि
की समान प्रतीत होती थी उसके कानमें मकाशचान् कुण्डल पड़े
हुए थे और बड़ बड़ा कर छोड़े हुए अग्निकी समान तेजस्वी
प्रतीत होता था ॥६६॥ उसके साथमें गहार करने वाले और भी
सब योधा तयार होकर निकले, उनका वर्ण धुएँकी समान था
शरीर बहुत बड़ा था श्रावें लाल लाल होरही थीं, मुख विगड़े

वाजिरथोवैश्व कालयन्तश्च मेदिनीम् । निर्धर्पुर्नगरात् सर्वे सु-
सन्नद्धाः प्रहारिणः ॥ ६६ ॥ वृत्तो दैत्यगणैः सार्धं नरकः काल-
सन्तिभः । भेरीशङ्खमृदङ्गानां पणवानां सहस्रशः ॥ १०० ॥
वाद्यमानानि शुश्राव जीमूतनिनदोपमः । यतः कृष्णस्ततो गत्वा
सर्वे ते विकृताननाः ॥ १ ॥ परित्रायं गरुत्पन्तं सर्वेऽप्युद्धयत
संगताः । गहता ह्यादयामासुः शरवर्षेण सैनिकाः ॥ २ ॥ शक्ति-
शूलगदाप्रासास्तोमरान् सायकान् बहून् । आकाशं ह्यादयामासु-
र्विमुञ्चन्तः सहस्रशः ॥ ३ ॥ कृष्णः कृष्णाम्बुदाकारः शार्ङ्गं गृह्य
धनुस्ततः । विस्फार्य समुद्रच्छात्रं धनुर्जलदनिःस्वनम् ॥ ४ ॥
व्यसृजच्छरवर्षाणि दानवानां जनार्दनः । शरवर्षेण तत्सैन्यं

हुए थे और वे सब दैत्य दानव तथा राक्षस अनेक प्रकारके
कवचोंको धारण कर रहे थे कोई ढाल तलवार ग्रहण कर रहे
थे तिन्हींके पास भाये और धनुष थे किन्हींके हाथमें शक्तिये थीं
और किन्हींके हाथमें शूल थे वे हाथी घोड़े और रथभी लंघारों
से पृथ्वीको कँपाते हुए चल रहे थे ॥ ६७-६६ ॥ मेघके गर्जेने
की समान और कालकी समान नरकासुर दैत्योंसे घिर रहा था
उसने सहस्रों भेरी शङ्ख मृदङ्ग और पणवोंको बजाए जाते हुए
सुना वे सब टेढ़े वेड़े मुख वाले दानव जहाँ श्रीकृष्ण थे तहाँ
पहुँच गए ॥ १०० ॥ १०१ ॥ सबने इकट्ठे होकर गरुड़जीको
वेर लिया और युद्ध करने लगे तदनन्तर उन सैनिकोंने बड़ी
भारी बाणवर्षा कर उनको ठकना चाहा ॥ १०२ ॥ सहस्रों
शक्ति, शूल, गदा, प्रास, तोपर तथा बहूतसे बाणोंको छोड़ने
वाले राक्षसोंने आकाशको भर दिया ॥ १०३ ॥ तदनन्तर काले
मेघकी समान आकार वाले श्रीकृष्णने मेघकी समान शब्द करने
वाले अपने बड़े भूरी शार्ङ्ग नामक धनुषका उठा कर ताना १०४
फिर जनार्दने दानवोंके ऊपर बाणोंकी वर्षा कर छोड़ी बाणोंकी

व्यद्रवत्तु महाहवात् ॥ ५ ॥ तद्युद्धमभनद्धोरं घोररूपेण रक्षसा ।
 भग्नव्यूहाश्च ते सर्वे कृष्णवाणभपीडिताः ॥ ६ ॥ केचिच्छिन्न-
 भुजाश्चैव छिन्नग्रीवाशिराननाः । केचिच्चक्रद्विधाच्छिन्नाः
 केचिद्वाणादितोरसः ॥ ७ ॥ केचिद् द्विधाकृताः शक्त्या गजाश्व-
 रथवाहनाः । केचित् कौमोदकीभिन्नाः केचिच्चक्रविदारिताः च
 एवं विमथिता सर्वा नराश्वरथवाहिनी । तत्रासीन्नरकेणास्य
 युद्धं परमदारुणम् ॥ ८ ॥ यत् समासेन वक्ष्यामि तन्मे निगदतः
 शृणु । त्रासनः सुरसंधानां नरकः पुरुषोत्तमम् ॥ ११० ॥ योधया-
 गास तेजस्वी मधुवन्मधुमूदनम् । क्रोधरक्तांतनयो नरको घन-
 सन्निभः ॥ ११ ॥ जग्राह कार्मुकं वीरः शक्रचापमिवोच्छ्रितम् ।
 तथार्ककिरणप्रख्यं बाणं जग्राह केशवः ॥ १२ ॥ दिव्येनास्त्रेण

वर्षा होनेसे वह सेना महासंग्रामसे भागने लगी ॥ १०५ ॥
 इस प्रकार उस भयंकर रूप वाले राजससे श्रीकृष्णका घोर युद्ध
 हुआ और कृष्णके बाणोंसे पीड़ित होनेके कारण उन सबके
 व्यूह टूट गये १०६ किन्हींकी भुजाएँ रुट गईं किन्हींके मस्तक
 शिर अथवा मुख छिन्न भिन्न हो गए कोई चक्रसे दो टुक हो गए
 और बहुतसोंके हृदयमें बाणोंके कारण पीड़ा होने लगी १०७
 बहुतसे हाथी घोड़े और रथों पर सवारी करने वाले शक्तिसे दो
 टुक हो गए कोई कौमोदकी नामकी गदासे विदीर्ण हो गए और
 कोई चक्रमे कट गए १०८ इस प्रकार गनुष्य हाथी घोड़े आदि
 की सब सेना कुचल गई प्राग्ज्योतिषपुरमें नरकके साथ श्रीकृष्ण
 का परम दारुण युद्ध हुआ था १०९ मैं उस बातको संक्षेपसे
 कहता हूँ उसको तुम सुनो देवताओंके संगको भयभीत करने
 वाला मेघकी समान (काला) नरकामूर क्रोधसे अपने नेत्रके
 कोशोंको लाल करके पुरुषोत्तम श्रीकृष्णसे मधुदैत्यकी समान युद्ध
 करने लगा १११ वीर केशवने इन्द्रकी समान उठे हुए धनुषको

समरे पूरयागास तं रथम् । उत्तमास्त्रं महापातं मुणो न नरको
 वली ॥१३॥ वज्रविस्फूर्जिताकारमागान्तं वीक्ष्य केशवः । चिच्छे-
 दास्त्रं महाभागश्चक्रेण मधुसूदनः ॥ १४ ॥ व्यहनत् सरथं चास्य
 शरैकेण जनार्दनः । सरथं सध्वजं सारथं जघान दशभिः शरैः ।
 तनुत्रं चैव चिच्छेद शरेण मधुसूदनः । ततो विमुक्तकवचः सर्प-
 स्येव तनुर्गथा ॥१६॥ इताश्वो विरथो वीरो वितनुत्रश्च दानवः ।
 जग्राह विपलज्वालं लोहभारार्पितं दृढम् ॥१७॥ आविध्य सहसा
 मुक्तं शूलमिन्द्राशनिप्रभम् । तदापतत् स संपेक्ष्य शूलं हेमपरि-
 प्कृतम् ॥१८॥ द्विगं छिन्नं घुरमेण कृष्णेनाद्भुतकर्मणा । तद्युद्ध-

और सूर्यकी किरणकी सगान तेज बाणको उठा लिया ११२
 और उस दिव्य अस्त्रसे सगरमें उसके रथको भर दिया
 तदनन्तर बलवान् नरकासुरने बड़े वेगसे गिरने वाले श्रेष्ठ अस्त्र
 को छोड़ा ११३ मधुर्दत्तका नाश करने वाले महाभाग श्रीकृष्णने
 कड़कते हुए वज्रकी, समान आकार वाले अस्त्रको आते हुए देख
 कर अपने चक्रसे उसको काट डाला ११४ तदनन्तर जनार्दनने
 एक बाण मार कर उस रथको तोड़ डाला और दश बाण मार
 कर ध्वजा और घोड़ोंको भी तोड़ डाला ११५ फिर मधुसूदन
 ने एक बाण मार कर उसके कवचको भी काट डाला कवच टूट
 जानेके कारण उसका शरीर (कैचली रहित) सर्पके शरीरकी
 सगान मालूम होता था ११६ जिसके घोड़े मर गए थे और
 रथ टूट गया था और जिसका कवच भी टूट गया था उस वीर
 दानवने निमल आभा वाले लोहेके भार वाले वज्रकी समान
 प्रभाव वाले दृढ़ शूलको उठा लिया और उसको घुसा कर साथ
 फेंका उस सुवर्ण मढ़े हुए शूलको आता हुआ देख कर १७-१८
 अद्भुत कर्म करने वाले श्रीकृष्णने तुरग नामक बाणसे उसके

मभवद्द वीरं घोररूपेण रक्षसा ॥१६॥ शस्त्रपातमहाघातं नरकेण
 महात्मना । मुहूर्तं योषयामास नरकं मधुसूदनः ॥१२०॥ अथोग्र-
 चक्रश्चक्रेण प्रदीप्तेनोक्रोद्ध द्विधा । चक्रद्विधाकृतं तस्य शरीरमप-
 तद्भुवि ॥ २१ ॥ विभक्तं कुलिशेनैव गिरेः शृङ्गं द्विधा कृतम् ।
 कृष्णमासाद्य देवेशं जगामास्तमिवांशुमान् ॥२२॥ चक्रोत्कृन्तित-
 गात्रोऽसौ दानवः पतितो रणे । वज्रपहारनिर्गिन्नं यथा गैरिक-
 पर्वतम् ॥ २३ ॥ भूमिस्तु पतितं पुत्रं निरीक्ष्यादाय कुण्डले ।
 उपातिष्ठत गोविन्दं वचनं चेदमब्रवीत् ॥२४॥ दत्तस्त्वयैव गोविन्दं
 त्वयैव विनिपातितः । यथेच्छसि तथाक्रीड वालः क्रीडनकैरिव २५

दो डुकड़े कर डाले महात्मा नरक राक्षससे शस्त्र गिरने पर
 बड़ा भारी संहार करने वाला वह युद्ध भयंकर रीतिसे हुआ था
 इस प्रकार मधुसूदनने नरकासुरसे मुहूर्त भरतक युद्ध किया १२०
 तदनन्तर उग्र चक्रको धारण करने वाले श्रीकृष्णने अपने प्रदीप्त
 चक्रसे उसके दो डुकड़े कर दिये तब तो वज्रसे विदीर्ण लेकर दो
 टुक हुए पर्वतके शिखरकी समान चक्रसे दो डुकड़ोंमें बटा हुआ
 उसका शरीर पृथिवीमें गिर पड़ा, देवेश श्रीकृष्णको पाकर वह
 राक्षस सूर्यकी समान अस्त होगया ॥ २१ ॥ २२ ॥ चक्रसे कटे हुए
 शरीरवाला वह दानव वज्रके पहारसे विदीर्ण हुए मेरुके पर्वतकी
 समान भूमिमें गिर पड़ा १२३ उस समय भूमि अपने पुत्रको गिरा
 हुआ देख कर कुण्डलोंके लेकर आई और गोविन्दसे यह बात
 कहने लगी ॥ १२४ ॥ हे गोविन्द ! इसको आपने ही दिया
 था और इस समय आपने ही इसको मार डाला वालक जैसे
 खिलौनेसे क्रीड़ा किया करता है इसी प्रकार आप इच्छानुसार
 क्रीड़ा करिये ॥ १२५ ॥ तदनन्तर सम्पूर्ण रत्न और अन्तः
 पुरोंको (राक्षस) तहाँ ले आए (उस समय पृथ्वीने कहा

उपानिन्पुस्ततस्तानि रत्नान्यन्तःपुराणि च । इमे ते कुण्डले देव
प्रजास्तस्यानुपालय ॥ १२६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि नरकवधे
त्रिपष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥

वैशम्पायन उवाच । निहत्य नरकं भूमिं वासवोपमत्रिकपम् ।
वासवावरजो विष्णुर्ददर्श नरकालयम् ॥ १ ॥ अथार्थगृहपासाद्य
नरकस्य जनार्दनः । ददर्श धनमक्षयं रत्नानि विविधानि च २
मणिमुक्तामवालानि वैदूर्गस्य च संचयान् । मसारगन्धकूटानि
तथा वज्रस्य संचयान् ॥ ३ ॥ जाम्बूनदमयान्यस्य शातकुम्भ-
पयानि च । पदीमज्वलनाभानि शीतरश्मिभानि च ॥ ४ ॥
शयनानि महार्हाणि तथा सिंहासनानि च । डिरण्यदण्डरुचिरं
शीतरश्मिसमभयम् । ददर्श तन्महच्छत्रं वर्षमाणमिन्धुदम् ।
जातरूपस्य शुभ्रस्य धाराः शनसहस्रशः ॥ ६ ॥ वरुणादाहृतं पूर्वं
कि-) हे देव ! यह वे कुण्डल हैं अब आप इसकी मजाकी रक्षा
करिये ॥ १२६ ॥ तरेसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६३ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-इन्द्रके छोटे भाई विष्णुने इन्द्रकी
समान पराक्रमी भूमिपुत्र नरकासुरको मारनेके पीछे नरकके
स्थानको देखा ॥ १ ॥ जनार्दन श्रीकृष्णने धनके लिये नरका-
सुरके घर जाकर अन्न, धन और अनेक प्रकारके रत्न देखे २
मणि, मोती मूँगे, वैदूर्गमणियोंके ढेर, मरुतमणि, चन्द्रकान्त-
मणि, हीरे और रत्नोंके ढेर (देखे) ॥ ३ ॥ नरकासुरके पलंग
और बहुमूल्य सिंहासन, सुवर्ण, शातकुम्भ (सुवर्णविशेष)
के थे वे जलते हुए अग्निकी आभाकी समान और चन्द्रमाकी
समान भी थे और चन्द्रमाकी समान कान्तिवाला सुवर्णका
मनोहर दण्डा भी श्रीकृष्णने तहाँ देखा ॥ ४ ॥ ५ ॥ और
सुवर्णकी सैंकड़ों और सहस्रों शुभ्र धाराओंको मेघकी समान

नरकेणेति नः श्रुतम् । यावद्रत्नं गृहे दृष्टं नरकस्य धनं बहु ७
 नैव राज्ञः कुबेरस्य न शकस्य यमस्य च । रत्नमन्त्रिचयस्तादृ-
 ग्दृष्टपूर्वो न च श्रुतः ॥ ८ ॥ हते भीमे निमुन्दे च हयग्रीवे च
 दानवे । उपानिन्युस्ततस्तानि रत्नान्यन्तःपुराणि च ॥ ९ ॥
 दानवा इतशिष्टा ये कोशस्यनपरत्निणः । केशवाम महाहार्षि
 यान्यर्हंत जनार्दनः ॥ १० ॥ दैत्या ऊचुः । इमानि मणिरत्नानि
 विविधानि बहूनि च । भीमरूपाश्च मातङ्गाः प्रवालत्रिकृतांकुशाः
 हेमसूत्रा महाकन्तारचापतोमरशालिनः । रुचिराभिः पताकाभिः
 शयला रुचिरांकुशाः ॥ १२ ॥ ते च विंशतिसाइस्त्राद्विस्तावत्यः
 करेणवः । अष्टादशसइस्त्राणि देशानारचोत्तमा हयाः ॥ १३ ॥

वरसाते हुए बड़े भारी धनको (श्रीकृष्णने) देखा ॥ ८ ॥

हमने सुना है, कि नरकासुर उसको बरुणके घरमें पहिले ले
 आया था नरकासुरके घरमें जितने रत्न और धन श्रीकृष्णने
 देखा उतना धन न राजा राजा कुबेरके यहाँ है न - इन्द्रके
 यहाँ और है न यमराजके यहाँ है जितना रत्नोंका सञ्चय
 तहाँ पर देखा था इतना न कहीं पहिले देखा था न सुना
 था ॥ ७ ॥ ८ ॥ भीमासुरके निमुन्दके और हयग्रीव दानवके
 मारे जाने पर जो दानव मरनेसे बच गए थे वे कोपके सञ्चय
 की रक्षा करने वाले दानव जनार्दन श्रीकृष्ण जिन बहुमूल्य
 वस्तुओंके योग्य थे उन रत्नोंके और कन्यारत्नोंको श्रीकृष्ण
 के पास ले आए ॥ १० ॥ दैत्योंने कहा, कि-यह अनेक प्रकारके
 बहुतसे मणि रत्न भयंकर रूपवाले हाथी मोतियोंके विचार
 वाले अंकुश सुवर्णकी जाली वाले हींदे कि-जिनके ऊपर चाप
 और तोमर चढ़े हुए हैं रुचिर पताकाओंसे अलंकृत कर्बुर, रुचिर,
 अंकुश, ऐसे बीस बहसू हाथी और चालीस सहसू हथानयें देश
 देशोंमें उत्पन्न हुए अष्टारह हजार उत्तम घोड़े और डे जनार्दन !

गोषु चापि भवेत् कामो यावत्तव जनार्दन । तान्वतीः प्रापयिष्यामो
 वृष्ण्यन्धकनिवेशनम् ॥ १४ ॥ आधिकानि च सूक्ष्माणि प्राग-
 नान्यासनानि च । कामव्याहारिणश्चैव पत्नियः प्रियदर्शनाः १५
 चन्दनागरुकाष्ठानि तथा कालीयकान्यपि । वसु यत्त्रिषु लोकेषु
 धर्मेषाधिगतं तव ॥ १६ ॥ प्रापयिष्याम तत्सर्वं वृष्ण्यन्धक-
 निवेशनम् । देवगन्धर्वरत्नानि पन्नगानां च यद्गुह्यं । तानि सर्वाणि
 सन्तीह नरकस्य निवेशने ॥ १७ ॥ वैशम्पायन उवाच । तत्
 सर्वं च हृषीकेशः परिगृह्य परीक्ष्य च । सर्वमाहारयामास दानवै-
 र्दारकां पुरीम् ॥ १८ ॥ ततस्तद्गारुणं छत्रं स्वयमुत्तिष्ठ्य माधवः ।
 हिरण्यवर्षं वर्षन्तमारुहोह विहङ्गपम् ॥ १९ ॥ गरुडं पतगश्रेष्ठं
 मूर्तिपन्तमिवाभ्युदम् । ततोऽभ्यगाद्द्विरिश्रेष्ठमगितो मण्डिपर्वतम् २०
 तत्र पुण्या वसुधाता ह्यभयंश्रामलाः प्रभाः । मणीनां हेमवर्णा-

जितनी गौर्धोकी भी आपकी इच्छा ही उतनी गौर्धो भी हम
 वृष्णि और अन्धकोंके घरमें पहुँचा दें ॥ ११—१४ ॥ उनके
 सूक्ष्म आसन और विस्तर और इच्छानुसार बोलने वाले प्रिय-
 दर्शन पत्नी चन्दन अगर और कालीयक नामक काष्ठ और तीनों
 लोकके जिस धनको आपने धर्मपूर्णक प्राप्त कर लिया है उन सब
 को हम वृष्णि और अन्धकोंके घरमें पहुँचा देंगे, देवता और
 गंधर्गोंके जो रत्न हैं और जो सर्पोंका धन है वह सब नरकोंके
 घरमें विद्यमान है ॥ १५—१७ ॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-
 तदनन्तर श्रीकृष्ण उन सबको ग्रहण कर तथा देख कर सबको
 दानवासे द्वारकापुरीमें लिया लाये ॥ १८ ॥ तदनन्तर माधवने
 सुवर्णकी वर्षा बरसाने वाला गरुणदेवताका छत्र अपने आप लगा
 लिया और गरुड पर सवार होगए ॥ १९ ॥ मूर्तिमान् मेघकी
 समान पत्तियोंमें श्रेष्ठ गरुड पर सवार होकर श्रीकृष्ण पर्वतश्रेष्ठ
 मण्डिपर्वत पर चले ॥ २० ॥ तहाँ पुण्यमय वायु बह रहा था

(५४६) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [चतुःषष्टितम

नामगिभूय दिवाकरम् ॥ २१ ॥ तत्र वैदूर्यात्नानि ददर्श मधु-
सूदनः । सनोरणपताकानि द्वाराणि शिखराणि च ॥ २२ ॥
विबुद्ध ग्रथितमेवाभः पर्वतौ मणिपर्वतः । हेमचित्रवितानंश्च प्रासा-
दैरुपशोभितः ॥ २३ ॥ तत्र ताचरहेमाभा ददर्श मधुसूदनः ।
गन्धर्वसुरमुख्यानां मिया दुहितरस्तथा ॥ २४ ॥ ददर्श पृथुल-
श्रोणीः संरुद्धा गिरिकन्दरे । नरकेण समानीता- रक्ष्यमाणाः
समन्ततः ॥ २५ ॥ त्रिविष्टपसमे देशे तिष्ठन्तीरपराजिताः ।
निर्विशन्त्यो यथा देव्यः सुखिन्यः कामवर्जिताः ॥ २६ ॥ परि-
व्रतमहाबाहुमेकवेणिधराः स्त्रियः । सर्वाः कपायवासिन्यः
सर्वाश्च नियतेन्द्रियाः ॥ २७ ॥ व्रतोपवासतन्वंग्यः कान्तन्त्यः कृष्ण-
दर्शनम् । ममेत्य यदुसिंहस्य सर्वाश्चक्रुः स्त्रियोऽङ्गलीन् ॥ २८ ॥

और सुवर्णके वर्ण वाली मणियोंकी अमल प्रभा सूर्यका अभि-
भव करके प्रकाशित होरही थीं ॥ २१ ॥ तहाँ पर मधुसूदनने
वैदूर्य मणि और रत्नोंको देखा तथा तोरण पताका वाले द्वार
और शिखरोंको देखा ॥ २२ ॥ सुवर्णके विचित्र वितानोंसे और
महलोंसे सुशोभित मणिपर्वत विजलीसे गुँथे हुए मँघकी समान
आभा (दिवा कर) शोभा पारहा था ॥ २३ ॥ मधुसूदनने
तहाँ पर सुवर्णकी समान आभा वाली गन्धर्व और मुख्य २
देवताओंकी मिय पुत्रियोंको देखा ॥ २४ ॥ उन्होंने देखा, कि-
वह पृथुलश्रोणि कन्याएँ पर्वतकी गुफामें बन्द थीं नरकासुर उन
को ले आया था और चारों ओरसे उनकी रक्षा होरही थी २५
वे अपराजित कन्याएँ स्वर्गकी समान देशमें देवियोंकी समान
सुखपूर्वक रहती थीं, परन्तु कामवर्जित थीं ॥ २६ ॥ उन कपाय
वसन धारण करने वाली जितेन्द्रिय एकवेणिधरा कन्याओंने
महाभुज श्रीकृष्णको घेर लिया ॥ २७ ॥ श्रीकृष्णके दर्शनकी
आकांक्षासे व्रत तथा उपवास करनेके कारण उनके शरीर कृश

नरकं निहतं ज्ञात्वा सुरं चैव महासुरम् । ह्यग्रीवं निमुन्दं च ताः
 कृष्णं पर्यवारयन् ॥ २६ ॥ ये चासां रक्षिणो वृद्धा दानवा यदु-
 नन्दनम् । कृताञ्जलिपुटाः सर्पे प्रणिपेतुर्वेयोधिकाः ॥ ३० ॥
 तासां परमनारीणामृपगात्तं निरीक्ष्यताम् । सर्वासामेव संकल्पः
 पतित्वेनाभवत्ततः ॥ ३१ ॥ तस्य चन्द्रोपमं वक्रं निरीक्ष्य मुदि-
 तेन्द्रियाः । संपहृष्टा महाबाहुमिदं वचनमब्रुवन् ॥ ३२ ॥ सत्यं बहन्
 पुरा वायुरिहास्मान् वायवमब्रवीत् । सर्वभूममत्तिव्रथ देवर्षिरपि
 नारदः ॥ ३३ ॥ विष्णुर्नारायणो देवः शङ्खचक्रगदासिभृत् । स
 भौमं नरकं हत्वा भर्ता च गविता म वः ॥ ३४ ॥ सुप्रियं वत
 पश्यामभिरश्रुतपरिन्दमम् । दर्शनेन कृतार्था हि वगमथ महा-
 होरहे थे उन सब स्त्रियोंने यदुसिंहके पास जाकर हाथ जोड़े २८
 उन स्त्रियोंने नरकासुर महासुर सुर ह्यग्रीव तथा निमुन्दको
 मारा हुआ जान कर श्रीकृष्णको घेर लिया ॥ २६ ॥ और इन
 की रक्षा करने वाले अवस्थामें अधिक वृद्ध दानव भी श्रीकृष्ण
 के सामने हाथ जोड़ कर उनको प्रणाम करने लगे ॥ ३० ॥
 जब उन सब श्रेष्ठ स्त्रियोंने वृषभकी समान नेत्रों वाले श्रीकृष्ण
 को देखा, तब उन सब स्त्रियोंके मनमें श्रीकृष्णको ही अपना
 पति बनानेका विचार उठा ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्णके चन्द्रमाकी समान
 मुखको देख कर उनकी इन्द्रियों पसन्न होगई तब उन्होंने पसन्न
 होकर महायुक्त श्रीकृष्णसे यह बात कही, कि- ३२ ॥ पहिले
 यहाँ पर चलते हुए वायुने और सब प्राणियोंकी गतिको जानने
 वाले देवर्षि नारदजीने भी हमसे सत्य वचन ही कहा था, कि- ३३
 शंख चक्र और गदा तथा तलवारको धारण करने वाले नारायण
 देव विष्णु श्रीमासुरको मारनेके अनन्तर तुम्हारे स्वामी होंगे ३४
 हमने जिनका वर्णन चिरकाल हुए सुना था, उन अविदमनको
 हम अब देख रही हैं, यह वही गिग चाग है आप महात्मा हैं

मनः ॥ ३५ ॥ ततस्ताः सान्त्वयागास प्रमदा वासवानुजः ।
 सर्वाः कमलपत्राक्षीर्द्वा चोवाच माधवः ॥ ३६ ॥ यथाईतः पूज-
 यित्वा समाभाष्य च केशवः । यानैः किंकरसंयुक्तैस्त्वाह मधु-
 सूदनः ॥ ३७ ॥ किंकराणां सहस्राणि रक्षसां वातरंहसाम् ।
 शिविकां बहतां तत्र निर्घोषः सुमहानभूत् ॥ ३८ ॥ तस्य पर्वत-
 रागस्य शृङ्गं यत्परमार्चितम् । विगलाकेंदुसंकाशं मणिकाञ्चन-
 तोरणम् ॥ ३९ ॥ सपत्निगणमानङ्गं समृग्व्यालपादपम् । शाखा-
 मृगगणाकीर्णं सुपन्तरशिलातलम् ॥ ४० ॥ न्यंकुभिश्च वराहैश्च
 रुरुभिश्च निषेवितम् । सपपातं महासानुं विचित्रशिखरद्रुमम् ४१
 अत्यद्भुतमचिन्त्यं च मृगवृन्दविलोडितम् । जीवंजीवकसंघैश्च
 बर्हिभिश्च निनादितम् ॥ ४२ ॥ तदप्यतिबलौ विष्णुदोर्भ्या-

आपका दर्शन पानेसे हम कृतार्थ होगई हैं ॥ ३५ ॥ तदनन्तर
 इन्द्रके छोटे भाई श्रीकृष्णने उन सब कमलनयनी कन्याओंकी
 ओर देख कर उनके हाठस दिया और उनसे संभाषण किया ३६
 केशव उचित रीतिसे उनका सत्कार कर उनसे संभाषण करने
 के अनन्तर उनके किंकरोंसे उड़ाई जाने वाली पाण्डुकिरियों पर
 ले चले ॥ ३७ ॥ जिस समय वायुवेगी सहस्र राक्षस किंकरोंने
 उस शिविकाको उठाया उस समय बड़ा भारी शब्द हुआ ३८
 उस पर्वतरागका शिखर परमपूजनीय था, निर्मल सूर्य और
 चन्द्राकी समान था उस पर मणि और सुवर्णके तोरण लग
 रहे थे ॥ ३९ ॥ उसमें पत्नी और हस्ती रहते थे और उसके
 वृक्षोंमें सर्प तथा मृग रहते थे और वन्दर तहाँ व्या रहे थे और
 तहाँ शिलाओंका फर्शसा लग रहा था ॥ ४० ॥ वारहसिंगे,
 मूअर और रुमृग उसका सेवन करते थे, तहाँ गणान था, उस
 का सानु बड़ा था और उसके कँगूरे तथा वृक्ष विचित्र थे ४१
 वह अति अद्भुत और अचिन्त्य था, मृगोंके झुण्ड तहाँ फिर रहे

मुत्पाटय भासुरम् । आरोगयापास वली गरुडे पत्निणाम्वरे ४३
 मण्डिपर्वतशृङ्गं च सभार्गं च जनार्दनम् । उवाह लीलया पत्नी
 गरुडः पततां वरः ॥ ४४ ॥ सपत्नवलनित्तेपैहिंणाद्रिशिखरोपमम् ।
 दिक्षु सर्वाद्यु संहादं जनयामास पत्तिराट् ॥ ४५ ॥ आरुजन् पर्व-
 ताग्राणि पादपांश्च समुत्तिपन् । संजहार महाभ्राणि विजहार
 च कानिचित् ॥ ४६ ॥ विषयं समतिक्रम्य देवयोश्चन्द्रसूर्ययोः ।
 ययी वानजनः पत्नी जनार्दनवशे स्थितः ॥ ४७ ॥ स मेरुगिरि-
 मासाद्य देवगन्धर्वसेवितम् । देवसन्नानि सर्वाणि ददर्श मधु-
 सूदनः ॥ ४८ ॥ विश्वेपां महतां चैव साध्यानां च नराधिप !
 भ्राजगानान्यतिक्रामदश्विनोश्च परन्तप ॥ ४९ ॥ प्राप्य पुण्य-
 तर्गोऽलोकान् देवलोकपरिन्दप । शक्रसद्य समासाद्य प्रविवेश

थे, चकोर और गयूरोसे बड़ गुंजार रहा था ॥ ४२ ॥ अतिवली
 बलवान् विष्णुने उस कान्तिवान् शिखरको भी अपनी दोनों
 भुजाओंसे उखाड़ कर पत्तिश्रेष्ठ गरुड़ पर धर दिया ॥ ४३ ॥
 पत्तिगोमें श्रेष्ठ पत्नी गरुड़ मण्डिपर्वतके शिखर तथा भार्गसहित
 जनार्दनको खेल २ में ही उड़ा कर लेजाने लगे ॥ ४४ ॥ उस
 समय उन पत्तिराजने हिमाचलके शिखरोंकी समान अपने बल-
 वान् पत्नीकी भ्रूणसे दिशाओंमें सन्नाटासा उत्पन्न कर दिया ४५
 जनार्दनके वशमें स्थित वायुवेगी गरुड़ पर्वतोंके अग्रभागको तोड़ते
 हुए वृत्तोंको उखाड़ते हुए, बड़े-बड़ादलोंको लाते हुए और किन्हीं २
 से बिहार करते हुए चन्द्रमा और सूर्यके विषयको लोच गए ४७
 मधुसूदनने देवता और गन्धर्वोंसे सेवित मेरुपर्वत पर पहुँच कर
 सम्पूर्ण देवभवनोंको देखा ॥ ४८ ॥ हे परन्तप ! वह विश्वेदेवता
 महत् देवता साध्यदेवता और अश्विनीकुमारोंके प्रकाशवान्
 (लोंकों) का अतिक्रमण कर गए ॥ ४९ ॥ हे अरिदमन ! वह
 परमपवित्र लोकोंमें होते हुए देवलोकमें पहुँचे और तहाँ जाकर

जनार्दनः ॥ ५० ॥ अत्रतीर्थं स ताच्यात्तु ददर्श विबुधाधिपम् ।
प्रीतश्चैवाभ्यनन्दत्तं देवराजः शतक्रतुः ॥ ५१ ॥ प्रादाय कुण्डले
दिव्ये वचन्दे तं तदाच्युतः । सभार्यो विबुधश्रेष्ठं नरश्रेष्ठो जना-
र्दनः ॥ ५२ ॥ अर्चितो देवराजेन रत्नैश्च प्रतिपूजितः । सत्य-
भामा च पौलोम्या यथावदभिनन्दिता ॥ ५३ ॥ वासवो वासु-
देवश्च जग्मतुः सहितौ तदा । अदित्या भवनं दिव्यं देवमातुर्मह-
र्षिमत् ॥ ५४ ॥ तत्रादितिष्ठुपास्यन्तीमप्सरोभिः सगन्ततः ।
ददर्शाते महाभागो महाभागं तपोन्विताम् ॥ ५५ ॥ अर्चिते
कुण्डले दिव्ये प्रादाददितिनन्दनः । वचन्दे तां शचीभर्ता मातरं
स्वामं पुरन्दरः ॥ ५६ ॥ जनार्दनं पुरस्कृत्य कर्म चैव शशंस तत् ।
अदितिस्तां सुतां प्रीत्या परिष्वज्याभिनन्द च ॥ ५७ ॥ आशीर्भि-

जनार्दन इन्द्रभवनमें घुस गए ॥ ५० ॥ तदनन्तर उन्होंने गरुडसे
उतर कर देवराज इन्द्रके दर्शन किये, उस समय देवराज शत-
क्रतुने प्रसन्न होकर उनको अभिनन्दन दिया उन दिव्य कुंडलों
को देकर नरश्रेष्ठ अच्युत जनार्दनने और उनकी स्त्रीने देवताओं
में श्रेष्ठ इन्द्रको प्रणाम किया ॥ ५२ ॥ उस समय देवराजने
उनकी पूजाकी और भेंटमें रत्न दिये, उधर इन्द्राणीने भी सत्य-
भामाका उचित सत्कार किया ॥ ५३ ॥ उस समय वासुदेव और
वासव (इन्द्र) देवताओंकी गाता अदितिके महासमृद्ध भवनको
साथ २ चले ॥ ५४ ॥ तहाँ पर उन महाभागोंने महाभागा
तपोस्विनी अदितिको देखा, अप्सरायें उनके चारों ओर खड़ी
होकर उनकी उपासना कर रहीं थीं ॥ ५५ ॥ उस समय शचीके
स्वामी अदितिनन्दन पुरन्दरने अपनी गाताको पूजनीय दिव्य
कुण्डल देकर प्रणाम किया ॥ ५६ ॥ और जनार्दनको आगे
करके वह सब कर्म सुना दिया, तब अदितिने उन दोनों पुत्रोंको
प्रीतिसे आलिगन कर अभिनन्दन दिया ॥ ५७ ॥ और अनु-

रजुकूलाभिरुनावप्यवदत्तदा । पीलोमी भक्त्यभागा च प्रीत्या पर-
मया युते ॥ ५८ ॥ अगृहीता वरार्हाया देव्यास्ते चरणौ शुभौ ।
ते चाप्यभ्यवदत् प्रेम्णा देवमाता यशस्विनी ॥ ५९ ॥ यथावद-
ब्रवीच्चैव जनादंगमिदं वचः । अष्टुष्यः सर्वभूतानामवध्यश्च
भविष्यसि ॥६०॥ यथैव देवराजोऽयमजितो लोकपूजितः । भव-
स्त्वियं वरारोहा नित्यं च प्रियदर्शना ॥६१॥सर्वलोकेषु विख्याता
दिव्यगन्धा मनोरमा । सत्यभामोत्तमा स्त्रीणां सुभगा स्थिर-
यौवना ॥६२॥जरां न यास्यति वधूर्पाश्रित्वं कृष्ण मानुषः । एव-
मभ्यर्चितः कृष्णो देवमात्रा महाबलः ॥६३॥ देवराजाभ्यनुज्ञातो
रत्नैश्च प्रतिपूजितः । जैनतेयं समारुह्य सहितः सत्यभामया ६४
देवाक्रीडं परिक्रामन् पूज्यमानं सुरर्षिभिः । स ददर्श महाबाहु-

कूल आशीर्वाद देकर दोनोंसे सम्भाषण किया, और इन्द्राणी
तथा सत्यभामाने भी परमपसन्नतासे उस वरके योग्य देवीके
शुभ चरणोंको ग्रहण किया, यशस्विनी देवमाताने उनको भी
प्रेमपूर्वक आशीर्वाद दिया ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ और जनार्दनसे यह
वचन कहा, कि-तुम सब भूतोंसे अष्टुष्य और अवध्य रहोगे ३०
जैसे यह देवराज अजित हैं और देवता इनकी पूजा करते हैं,
इसी प्रकार यह वरारोहा सर्वदा प्रियदर्शना होगी ६१ सब
लोकोंमें प्रसिद्ध हो जावेगी और इस मनोरमाकी गन्ध दिव्य
होगी और यह स्त्रियोंमें उत्तम सत्यभामा सुभगा और स्थिर-
यौवना होगी ६२ और हे कृष्ण ! जब तक तुम मानुष्य रहोगे
तब तक यह यह बुढिया नहीं होगी, महाबली श्रीकृष्ण इस
प्रकार देवमातासे सत्कार पाकर ॥६३॥ तथा देवराजसे रत्न
ग्रहण कर अनुज्ञा ले सत्यभामाको साथमें ले गरुड़ पर सवार
हो देवताओंकी आक्रीडभूमि (क्रीडस्थल) में घूमने लगे;
तहाँ पर महाभुज श्रीकृष्णने इन्द्रके क्रीडास्थलमें देवताओंसे

राक्रीड़े केशवस्य ह ॥ ६५ ॥ दिव्यमस्यर्चितं देवैः पारिजातं
 महाद्रुमम् । नित्यपुष्पधरं दिव्यं पुष्पगन्धगनुत्तमम् ॥६६॥ यमा-
 साद्य जनः सर्वो जातिं स्मरति पौर्विकीम् । संरक्ष्यमाणं देवैस्तं
 प्रसहामितविक्रमः ॥६७॥ उत्पाटयारोपयामास विष्णुस्तं गरुडो-
 परि । सोऽपश्यत सत्यभामा च दिव्यमप्सरसां गणम् ॥ ६८ ॥
 पृष्ठतः सत्यभामा च दिव्या योषा च वीक्षिताम् । प्रायात्ततो
 द्वारवतीं वायुजुष्टेन वै पथा ॥ ६९ ॥ श्रुत्वा तं देवराजस्तु कर्म
 कृष्णस्य तत्तदा । अनुमेने महाबाहुः कृतकमेति चाब्रवीत् ॥७०॥
 स पूज्यमानस्त्रिदेशैः सप्तर्षिगणसंस्तुतः । प्रतस्ये द्वारकां कृष्णो
 देवलोकादरिन्दम ॥७१॥ सोऽभिपत्य महाबाहुर्दोर्घग्ध्वानमन्य-
 वत् । पूजितो देवराजेन ददृशे गदनीं पुरीम् ॥ ७२ ॥ तथा कर्म

पूजित सर्वदा पुष्पोंको धारण करने वाले दिव्य और पवित्र
 गंध वाले पारिजात नामक महावृक्षको देखा ॥ ६४-६६ ॥
 उस वृक्षके पास पहुँचने पर सब प्राणियोंको अपने पूर्ण जन्मका
 स्मरण आजाता है, देवता उसकी रक्षा कर रहे थे, अमित परा-
 क्मी विष्णुने उसको उखाड़ कर गरुड पर धर लिया, तदनन्तर
 सत्यभामाने और श्रीकृष्णने अप्सराओंके दिव्य गणोंको
 देखा ६७-६८ उन्होंने भी पीठकी ओरसे दिव्य स्त्री सत्यभामा
 को देखा, तदनन्तर (श्रीकृष्ण) वायुसेवित मार्गसे द्वारकापुरी
 को चले ६९ महाभुज देवराजने भी श्रीकृष्णके उस कर्मका
 अनुमोदन किया और उन्होंने कहा, कि-यह कर्म तो (श्रीकृष्ण
 ने) कर ही लिया (अब क्या) ७० हे अरिन्दम ! तदनन्तर
 देवताओंसे पूजा पाते हुए और सप्तर्षियोंसे स्तुति किये जाते हुए
 श्रीकृष्णने देवलोकसे द्वारकाको प्रस्थान किया ७१ देवराजकी
 पूजा करनेसे उन महाभुजको बहुत दूरका मार्ग भी थोड़ी
 दूरका प्रतीत हुआ हुआ और उन्होंने मार्गका अति कम कर

महत् कृत्वा भगवान् वासवानुजः । उपायाद् द्वारकां कृष्णः
श्रीमान् गरुडवाहनः ॥ ७३ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि पारिजातहरणं
द्वारकापवेशं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥

जनमेजय उवाच । पादुर्भावे मुनिश्रेष्ठ माथुरे चरितं शुभम् ।
शृण्वन्नेवाधिगच्छामि त्वं कृष्णस्य धीमतः ॥ १ ॥ द्वारकायां
निवसतः कृतदारस्य पद्गुणम् । चरितं ब्रूहि कृष्णस्य सर्वं हि
विदितं तत्र ॥ २ ॥ वैशम्पायन उवाच । जनमेजय कृष्णस्य
कृतदारस्य भारत । त्रिविधं चरितं त्रिविधं तस्यैव सदृशं ममो ।

यादवी पुरीको देखा ७२ इन्द्रके छोटे भाई गरुडवाहन श्रीमान्
भगवान् कृष्ण इस प्रकार बड़ा भारी कर्म करके द्वारकापुरीमें
आगए ७३ चौसठवाँ अध्याय समाप्त ६४

जनमेजयने कहा, कि-हे श्रेष्ठ मुनि ! बुद्धिमान् श्रीकृष्णने
माथुरामें उत्पन्न होकर जो शुभचरित्र किया था उसको सुनते
सुनते मेरी तृप्ति नहीं होनी ॥ १ ॥ आपको श्रीकृष्णका सब
चरित्र विदित है इस लिये आप श्रीकृष्णने द्वारकामें बसकर जो
पद्गुण युक्त चरित्र किया हो उसका वर्णन करिये, पद्गुणोंका
वर्णन शास्त्रमें इसप्रकार कहा है कि-“सर्वज्ञता तृप्तिरनादिवोधः
स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः । अनन्तशक्तिश्च विभोर्विशुद्धाः
पडाहुरहानि महेश्वरस्य ॥-वायुपुराण” अर्थात् विशुद्धो जानने
वाले पुरुष सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि कालका ज्ञान, स्वतन्त्रता,
सर्वदा शक्तिका लोप न होना और अनन्तशक्ति इन छः अंगों
को व्यापक महेश्वरके गुण बतलाते हैं) ॥ २ ॥ वैशम्पायन
जीने कहा, कि-हे भरतवंशी जनमेजय राजन् ! स्त्रियोंको स्वी-
कार करनेवाले भगवान् विष्णुके उन्हींके समान त्रिविध चरित्र
के। सुनिये महातपस्वी प्रतापी वासुदेवका जब विवाह होगया

मासदारो महानेजा वासुदेवः प्रतापवान् । रुक्मिण्या सहितो
 देव्या ययौ रैवतकं नृप ॥ ४ ॥ उपवासावसानं हि रुक्मिण्या-
 प्रतिपूजयत् । तर्पयिष्यन् स्वयं विप्रान् जगाम मधुसूदनः ॥५॥
 कुमाराः प्रययुस्तत्र पुत्रा भ्रातर एव च । प्रेषिता वासुदेवेन नार-
 दस्याभ्यनुज्ञया ॥६॥ षोडशस्त्रीसहस्राणि जगदुरेव च धीमतः ।
 ऋद्ध्या परमया राजन् विष्णोरेवानुरूपया । ७ ततस्तत्र द्विजा-
 तीनां कामान् प्रादादशोत्तमः । अर्थिनां धर्मनित्यानां वन्दिना-
 मिष्टवादिनाम् ॥ ८ ॥ कल्याणनामगोत्राणां महतां पुण्यकर्म-
 णाम् । योनैः श्रौतैश्च माखैश्च शुद्धानां कुल्य दन ॥ ९ ॥ तर्प-
 यित्वा द्विनान् कामैरिष्टैरिष्टः सतां गतिः । ज्ञातीन् सन्तर्पयामास
 यथार्हं भक्तवत्सल ॥ १० ॥ उपवासावसानेऽथ भगवान् सवि-

हे राजन्! तब वह रुक्मिणी देवीको साथ लेकर रैवतक पर्वतको
 चले रुक्मिणीके व्रतसमाप्तिका सत्कार करनेके लिये भगवान् मधु-
 सूदन अपने आप ही ब्राह्मणोंको तृप्त करनेके लिये चले ३-४
 नारदजीकी आज्ञासे श्रीकृष्णके भेजने पर वहाँसे पुत्र और
 भाई तथा कुमार यह सब चले ॥ ६ ॥ हे राजन् ! उस समय
 बुद्धिमान् श्रीकृष्णकी सालह हजार रानियें भी चलीं उनकी
 परम संपत्ति भी श्रीकृष्णके अनुकूल ही थी ॥७॥ हे कुहनन्दन !
 उस समय श्रीकृष्णने मानना करनेवाले, सर्वदा धमका पालन
 करनेवाले, चन्दी, भियभाषण करनेवाले कल्याणमय नाम तथा
 गोत्रों वाले, बड़ाभारा पुण्य कर्म करनेवाले तथा योनि सम्ब-
 न्धोंके कारण, पढ़नेके सम्बन्धके कारण तथा यज्ञसंनयी कर्म
 के कारण पवित्र ब्राह्मणोंको इच्छानुसार पदार्थ दिये ॥ ८ ॥
 इसप्रकार ब्राह्मणोंको इच्छानुसार पदार्थसे पवित्र करके सज्जनों
 की आभक्षित गतिरूप भक्तवत्सल (भगवान्) ने अपने जाति
 वालोंको भी उचित रीतिसे तृप्त किया १० उपवासके अन्तमें भगवान्

शेषतः । बहु मेने प्रियां भार्या रुक्मिणीं भीष्मकालाजाम् ॥११॥
 वसतस्तस्य कृष्णस्य सदारस्यामितीजसः सहासीनस्य रुक्मि-
 ण्या नारदोऽध्याययो मुनिः ॥१२॥ आगतं चाप्रमेयात्मा मुनि-
 मिन्द्रानुजस्तदा । शास्त्रदृष्टेन विधिना अर्चयामास केशवः ॥१३॥
 सोऽर्चितो वासुदेवेन मुनिरर्च्यतमः सताम् । पारिजाततरोः पुष्पं
 ददौ कृष्णाय भारत ॥ १४ ॥ तद् वृत्तराजकुसुमं रुक्मिण्याः
 प्रददौ हरिः । पार्श्वस्था सा हि कृष्णस्य भोज्या नरवराभवत्
 प्रतिगृह्य तु तत्पुष्पं कामारण्यरनिदिता । शिरस्यमलपत्रात्ती
 ददौ कृष्णंगितानुगा ॥१६॥ त्रैलोक्यरूपसर्वस्वं नारायणमनो-
 हरा । शुशुभे देवपुष्पेण द्विगुणं भैष्मकी तदा १७नां नारदस्तथो-
 ने भीष्मककी पुत्री अग्नी प्यारी भार्या रुक्मिणीका विशेष मान
 क्रिया था ११ अमित तेजस्वी श्रीकृष्ण इस प्रकार अग्नी स्त्रियों
 के साथ तहाँ निवास करते थे, एक समय श्रीकृष्ण रुक्मिणीके
 साथ बैठे हुए थे, कि-इन्नेमें ही तहाँ श्रीकृष्ण आगए ॥१२॥
 अमेय आत्मा वाले इन्द्रके छोटे भाई श्रीकृष्णने (अग्ने यहाँ)
 आए हुए नारदमुनिकी शास्त्रोक्त रीतिसे पूजा की ॥ १३ ॥
 हे भारत ! सज्जनोंके परमपूज्य नारदजीकी जब इस प्रकार
 श्रीकृष्णने पूजाकी तब नारदजीने श्रीकृष्णको कवचवृत्तका एक
 पुष्प दिया ॥ १४ ॥ हे मनुष्यश्रेष्ठ ! उस समय भोजराजकी
 पुत्री श्रीकृष्णके पास ही बैठी था इस लिये श्रीकृष्णने यह वृत्त-
 राजका पुष्प रुक्मिणीको देदिया ॥ १५ ॥ कृष्णके इशारेके
 अनुसार चलनेवाली कमलके समान जेवों वाली मिन्द्राहित
 कामदेवकी मानाने वह पुष्प लेकर अग्ने शिरमें लगालिया १६
 उस फूलमें त्रिलोकीका सारा रूप भर रहा था इस लिये नारा-
 यणको मगोहर लगने वाली राजा भीष्मककी पुत्री उस समय उस
 देवपुष्पके कारण दुगनी खिल उठी ॥ १७ ॥ उस समय ब्रह्माजी

वाच मुनिव्रह्मसुतस्तदा । तर्धैवोपगिकं पुष्पमेकं देवि पतिव्रते १८
 अलंकृतं पुष्पमेतत् संसर्गात्तव सर्वथा । अत्यर्हा च मता मे त्वमेतत्
 पुष्पाद् धृतव्रते ॥ १९ ॥ कल्याणगुणसम्पन्ने सततं भर्तृवत्सले ।
 अम्लानमेतत् सततं पुष्पं भवति कामिनि ॥ २० ॥ सम्बत्सरपरं
 कालं कालज्ञे गुणसम्पते । ईप्सितानपि गन्धांश्च ददाति वदता
 वरे ॥ २१ ॥ शीतोष्णो चेप्सिते देवि पुष्पमेतत् गयच्छति । स्रव-
 त्यपि रसान् देवि मनसा काञ्चितान् वरान् ॥ २२ ॥ सेव्यमानं
 च सौभाग्यं ददाति वरवर्णिनि । स्रवत्यपि तथा गन्धानीप्सि-
 तान् प्रीतिवर्धनान् ॥ २३ ॥ यानि यानि च पुष्पाणि त्वं देव्य-
 भिलषिष्यसि । कुसुमं वृत्तराजस्य तानि तानि प्रदास्यति । २४।
 एतदेव भगाधानं धर्मिष्ठे पुत्रदं तथा । मतिं च नाशुभे धरो धार्य-
 माणं सदा शुभे ॥ २५ ॥ यद्यदिच्छसि वर्णं च तत्सर्वं धारयि-
 के पुत्र नारदमुनिने उससे इस प्रकार कहा, कि-यह पुष्प वस
 एक ही है और हे पतिव्रते देवि ! यह तुम्हारे ही योग्य है १८
 यह पुष्प तुम्हारे संसर्गसे अलंकृत होगया, हे व्रतधारिणी ! तुम
 ने इस पुष्पको धारण कर मेरा बड़ा सत्कार किया है ॥ १९ ॥
 हे सर्वादा स्वामीको मिय लगने वाली ! कल्याण गुण सम्पन्न
 कामिनी ! यह पुष्प कभी नहीं कुम्हलाता है २० हे कालको जानने
 वाली ! हे गुणवती ! हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ स्त्री ! यह पुष्प साल
 भर तक अभिलषित गन्धोंको भी देता रहता है २१ हे देवि !
 यह इच्छित वसोंको वहाता है और मनोभिलषित वरोंको देता
 है २२ और हे वरवर्णिनी ! सेवा करने पर यह पुष्प सौभाग्य
 को देता है, और प्रीतिको बढ़ाने वाली चाही हुई सुगन्धियोंको
 भी चलाता है २३ हे देवि ! तुमको जिन २ पुष्पोंकी इच्छा होगी
 यह वृत्तराजका पुष्प तुमको वही २ पुष्प देगा २४ हे धर्मिष्ठे !
 यह ऐश्वर्य देने वाला और पुत्र देने वाला पुष्प है और हे शुभे !

ष्यति । स्वर्षं वा यदि वा स्थूलं ह्यन्दतस्ते भविष्यति ॥ २३ ॥
 शनिष्टगन्धहरणं तत्समं गन्धवर्धनम् । प्रदीपकर्म रात्रौ च करोति
 कमलेक्षणे ॥ २७ ॥ सन्तानकसूत्रोमालापुष्पवस्त्रादि वाच्युतम् ।
 पुष्पमण्डपमुत्थानि चिन्तितेन पदास्यति ॥ २८ ॥ युष्मन्ता वा
 पिपासा वा ग्लानिर्वाप्यथवा जरा । देववद्भारयन्त्यास्ते स्व-
 च्छन्देन भविष्यति ॥ २९ ॥ अनुगीतानि गीतानि दाम्पत्यपि
 च चिन्तिते । सुवादिभान् समधुरास्तथैव तव संमतान् ॥ ३० ॥
 पूर्णं सम्बन्धरे देवि पुष्पमेतत्तत्रान्तिकात् । निर्वत्स्यते तरुवरं
 समयेन प्रयास्यति ॥ ३१ ॥ कृतिरेषा हि भद्रन्ते पारिजातस्य
 सुभभे । निसर्गतः सर्गकृता सत्कारार्थे सुरद्विषाम् ॥ ३२ ॥ उया

इस पुष्पको धारण करने पर कभी अशुभ बुद्धि नहीं होती है २५
 तुम जिस वर्णको चाहोगी यह उन सब वर्णोंका होजावेगा और
 यह तुम्हारी इच्छानुसार छोटा वा मोटा होजाया करेगा २६
 यह दुर्गन्धियोंको हरने वाला है और इसी प्रकार सुगन्धियोंको
 बढ़ाने वाला है और हे कमलनेत्रे ! यह पुष्प रात्रिमें दीपकका
 काम दिया करता है २७ और यह पुष्प चाहने पर सन्तान हार
 माला पुष्प वस्त्र आदि अच्युत वस्तु तथा पुष्प मण्डप आदि
 मुख्य २ वस्तुओंको भी देदेगा २८ जब तक तुम इसको धारण
 किये रहोगी, तब तक भूख प्यास ग्लानि अथवा बुढ़ापा यह
 देवताओंकी समान तुम्हारी इच्छाके बशमें रहेंगे २९ और
 विचारने पर यह पुष्प तुम्हारे अनुकूल गधुर वाजे पर गीत और
 गाने भी सुनाया करेगा ३० हे देवि! जब सालपर पूरा होजायगा
 तब समय पूर्ण होने यह पुष्प तुम्हारे पाससे वृत्तोंमें श्रेष्ठ कल्प-
 वृत्त पर चला जायगा ३१ हे सुभभे! यह इस कल्लवृत्तका स्वभाव
 है तुम्हारा कल्याण हो ब्रह्माजीने देवताओंका सत्कार करनेके
 लिये ? इसका ऐसा स्वभाव बना दिया है ३२ हे सुभभे ! हिमा-

देववरस्येष्टा हिमालयसुता सती । धारयन्तीश्वरी नित्यं पुष्पा-
 यवेतानि सुप्रभे ॥ ३३ ॥ अदितिश्च सपौलोमी महेन्द्रसुरतारणी ।
 सावित्री देवमाता च श्रीश्च सर्वगुणोचिता ॥ ३४ ॥ देवपत्न्य-
 स्तथैवान्ना देवाश्च वसुदेवताः । सम्बत्सरपरः कालः सर्वेषां न
 तु संशयः ॥ ३५ ॥ षोडशस्त्रीसहस्राणां मध्ये त्वं खलु वर्तसे ।
 अद्येष्टां वासुदेवस्य वेत्सि त्वां भोजनन्दिनि ॥ ३६ ॥ सपत्न्यस्ते
 गुणोपेते सर्वाः सर्वेश्वरप्रिये । अवमानावसेकेन त्वया सिक्ताथ
 भामिनि ॥ ३७ ॥ प्रकाशमद्य सौभाग्यमनिवार्य यशश्च ते । मन्दार-
 कुसुमं दत्तं यत्ते मधुनिघातिना ॥ ३८ ॥ अद्य सात्राजितो देवी
 ह्यास्यते वरवर्णिनी । सौभाग्यादद्यं सदा वेत्सि यात्मानं सुभगं
 सती ॥ ३९ ॥ साम्बमाता च गान्धारी भार्याश्चान्या महात्मनः ।

लयकी पुत्री देवताओंमें श्रेष्ठ महादेवकी प्यारी ईश्वरी उमादेवी
 इन पुष्पोंको सर्वदा धारण किये रहती हैं ३३ अदिनि महेन्द्रके
 सुरतकी उत्पादिका इन्द्राणी देवमाता सावित्री और सब गुणोंके
 योग्य लक्ष्मी ३४ देवपत्नियों तथा दूसरे देवता और वसुदेवता
 इस पुष्पको अधिकसे अधिक साल भर तक ही धारण करसकती
 हैं ३५ हे भोजनन्दिनि ! तुम सोलह हजार स्त्रियोंके बीचमें रहती
 हो यह तो ठीक है परन्तु मैं जान रहा हूँ कि आज तुम वसुदेव
 की प्यारी होरही हो ॥ ३६ ॥ हे सर्वेश्वरप्रिये ! हे भामिनि !
 हे गुणोपेते ! तुमने अपनी सब सौतों पर अपमान झिड़क
 दिया ॥ ३७ ॥ मधुमूदनने तुमको मन्दारका पुष्प दे दिया. इस
 से तुम्हारे सौभाग्यका आज पक श होरहा है और तुम्हारा यश
 दुर्निवार्य होरहा है ॥ ३८ ॥ जो अपनेको सौभाग्यवती और
 सुभगा समझती है, वह वरवर्णिनी सात्राजिकतकी पुत्री आज
 (तुम्हारे सौभाग्यको) जानेंगी ३९ साम्बकी माता और गान्धारी
 तथा इन महात्माकी और भी भार्याएँ आज अपने सौभाग्यको

सौभाग्यार्थोद्यताकान्तामद्य मोक्षयन्ति निःस्पृहाः ॥४०॥ सौभा-
 ग्यैकरथो जैत्रस्तव देव्यद्य निःसृतः । मनोरथरथानां, यः सहस्र-
 रणि दुर्जयः ॥४१॥ अद्याहमवगच्छमि सवेथा सर्वशोभने । आत्मा
 द्वितीयः कृष्णस्य भोजे त्वगिति भामिनि ॥ ४२ ॥ त्रैलोक्य-
 रत्नसर्वस्वमदेदाद्यत्तवान्युतः । जीवितातिशयस्तेन त्वया प्राप्तो
 हरिमिये ॥ ४३ ॥ नारदेनैवमुक्तं तु तथ्यं वाक्यं नराधिपः
 तत्रस्थाः शुश्रुमुः प्रेष्याः प्रेषिताः सत्यभामया ॥ ४४ ॥ देवीनां
 च तथाऽन्पासां पत्नीनां च विशाम्यते । दृष्ट्वा ताः स विशेपं च
 नारदेनाभ्युदाहृतम् ॥ ४५ ॥ तच्च श्रुत्वा मुनिखिलं प्रेष्याभिः
 स्त्रीस्वभावतः । प्रकाशीकृतमेवासीद्विष्णोरन्तःपुरे तदा ॥४६॥
 कर्णाकर्णि ततो देव्यः कौलीनपिव संघशः । मन्त्रगांचक्रिरे हृष्टा

बढ़ानेकी आकांक्षाको त्याग देंगी और निस्पृह हो जावेंगी ४०
 हे देवि ! आज तुम्हारा सौभाग्यरूपी रथ निकल आया है इस
 को सैकड़ों मनोरथरूपी रथ भी कठिनतासे जीत सकते हैं ४१
 हे भोजकन्ये ! हे भामिनि ! हे सब प्रकारसे सर्वशोभने ! आज
 मैं तुमको कृष्णकी दूसरी आत्मा समझता हूँ ४२ अच्युतने तुम
 को त्रिलोकीके रत्नोंका सर्वस्व ही देादया, इससे हे हरिमिये !
 मैं समझता हूँ कि- तुमने जीवनसे भी अधिक वस्तु पा ली ४३
 हे नरेन्द्र ! नारदजीके कहे हुए इस सत्य वचनको सत्यभामाकी
 भेजी हुई तहाँ पर खड़ी हुई दूतियोंने सुना ॥४४॥ हे राजन् !
 तहाँ पर भगवान्की और भी दूसरी देवी पत्नियोंकी दूतियोंको
 खड़े देख कर नारदने इस बातको और भी अधिक कहा था ४५
 अपनी दासियोंके मुखसे इस सब बातको सुनकर विष्णुके अन्तः-
 पुरमें इस बातका चकरवा फैल गया ॥४६॥ कृष्णकी पत्नियें
 मसन्न होकर रुक्मिणीके गुणके उदयकी और अपनी कुलीनता
 (अर्थात् हमारा कुल निन्दित है यह समझ कर ही श्रीकृष्णने

मा देवी स्नेहात् स कल्पपन्निव । भीतभीतः स शनकैर्निशय मधु
 मूदनः ॥ ४ ॥ मेवमं द्वारदेशे तु तिष्ठेत्युक्त्वा विवेश ह । नारद-
 स्योपचारार्थं मधुञ्जं विनियुज्यासः ॥ ५ ॥ स ददर्श प्रियां दूरात्
 क्रोधागारगता तदा । प्रेष्यामिन्न स्थितां कोपान्निःश्वसन्तीं मुहु-
 मुहुः ॥ ६ ॥ करजाग्रावलीढ तु पंरुजं मुखपंकजे । संश्लेष-
 यित्वा निःश्वस्य विहसन्तीं पुनः पुनः ॥ ७ ॥ किञ्चिदाकुलि-
 ताग्रण चरणेन चमुन्वयाम् । कृत्वा पृष्ठेऽथ वदनं विहरन्तीं पुनः
 पुनः ॥ ८ ॥ कम्पने पुनः सन्त्ये मुखपद्मं निवेश्य च । वनितां
 चारुमर्वाङ्गीं ध्यायन्तीं कपलेक्षणाम् ॥ ९ ॥ सरसं चन्दनं गृह्य
 प्रेष्यादस्नादग्निदिताम् । प्रवृद्धादयित्वा हृदयं त्रिपन्तीं निर्दयं

तहाँ पर प्रवेश किया ॥ ३ ॥ उन्होंने स्नेहवश अपने मनमें संक-
 ल्प किया, कि वह रुष्ट हो रही होगी इस लिये मधुमूदन भय-
 भीतकी समान धीरे २ व-ँको चले ॥ ४ ॥ उन्होंने नारदजी
 की सेवा करनेके लिये मधुञ्जको नियुक्त करदिया और सेवक
 को दरवाजे पर खड़ा रहनेके लिये कहकर धीरे २ चले ॥ ५ ॥
 उन्होंने दूरमें ही देखा तो उनकी प्रिया कोपभवनमें पड़ी हुई
 थी और वहाँ दासीकी समान पड़ी २ कापसे वारम्बार आहें
 भर रही थी ॥ ६ ॥ और आने मुखकमलमें उंगलियोंसे पकड़े
 हुए कमलको लगाकर नागम्भार सात लेकर हँस रही थी
 (अर्थात् सान्नी मुक्तमें भी अधिक सौभाग्यवती है यह विचार
 कर आश्चर्य कर रही थी) ॥ ७ ॥ और कुछ २ हिलते हुए
 चरणके अग्रभागसे पृ-ँकी कुरेदनेके कारण अपने मुखको
 टेढ़ा करते वह वरम्भार कुछ गुनगुना रही थी ॥ ८ ॥ और
 वह सर्वाङ्ग-सुन्दरी कपलोंकी समान नेत्रों वाली स्त्री अपने
 दाहिने हस्तकमलपर अपने मुखकमलको धरे हुए थी ॥ ९ ॥
 वह अनिन्दिता दासीके हाथमें सात चन्दनकी अङ्गुली कर अपने

पुनः ॥ १० ॥ पुनरुत्थाय शयनात् पतन्ती च पुनः पुनः । तास्ता-
 रचेष्टाः मियापारच तथाऽप्या ददृशे हरिः ॥ ११ ॥ अचगुण्डय
 यदा वक्रमुपधाने न्यवेशयत् । इदमन्तरगित्येवं तदा गत्वा जना-
 र्दनः ॥ १२ ॥ प्रेष्याजन स संज्ञाय अनाख्येयोऽरिग सज्ञया ।
 सशंक्तिप्रचारश्च त्वरितोऽवगमत् स ताम् ॥ १३ ॥ ग्रहाथ
 व्यजनं चैव स्थित्वा स परिपार्श्वगः । शनैरिवासृजद्दानं जहास
 शनकैरिव ॥ १४ ॥ स पारिजातपुष्पस्य ससर्गादिनुवासितः ।
 वभार भगवान् गन्धं दिव्यं मानुषदुर्लभम् ॥ १५ ॥ अत्यद्भुतं
 सुगन्धं च जिघ्रित्वा विस्मयान्विता । अपाटुणोन्मुखां सत्मा
 मिमेनदिति चाब्रवीत् ॥ १६ ॥ सोत्थिता पृष्टतो देवगणशयन्ती
 शुचिस्मिता । पर्यपृच्छदधो प्रेष्या गन्धस्य प्रभवे तदा ॥ १७ ॥

हृदयको प्रसन्न करने लगी फिर उसने उस चन्द्रनको निर्दयता
 से फेंक दिया (इस वानसे उसकी भ्रान्तता स्पष्ट प्रकट हो
 रही है) ॥ १० ॥ वह अपने पलंगसे उठकर बारम्बार गिर
 पड़ती थी इस प्रकार श्रीकृष्णने अपनी मियाकी इन चेष्टाओंको
 तथा और भी चेष्टाओंको देखा ॥ ११ ॥ जब वह अपने मुख
 को वस्त्रसे ढक कर तथिये पर डालने लगी इसी समय
 श्रीकृष्णने तहाँ पहुँच कर दासियोंसे इशारेसे कहा, (क तुम मुझे
 मत बतलाना और डरते २ चलकर शीघ्रतासे उसके पास पहुँच
 गये ॥ १२ ॥ १३ ॥ और पङ्के लोकर उसके पास खड़े हो
 घीरे घीरे इवा कर घीरे से हँसे ॥ १४ ॥ कल्पवृक्षके पुष्पके
 ससर्गके कारण वसे हुए भगवान् पुष्पों को दुर्लभ दिव्य
 गन्धको धारण कर रहे थे ॥ १५ ॥ उस अद्भुत सुगन्धको सूँघ
 कर सत्यभागाने विस्मित होकर अपने मुखको उठाड़ दिया और
 कहने लगी, कि यह क्या है ॥ १६ ॥ श्रीकृष्ण उगकी पीटकी
 ओर खड़े हुए थे इस लिये उस उठी हुई पवित्र दास्य वाली स्त्रीने

ताः पृष्ठास्त्वपभापन्त्यो जानुभ्यां धरणीं गताः । अधोमुख्यस्त-
 तस्तस्थुः कृताञ्जलिपुटास्तदा ॥ १८ ॥ तदपूर्वमदृष्ट्वैव गन्धं
 मुञ्चन्ति मेदिनी । कथमेकतरस्तस्या गन्धोऽयमिति तत् खलु १६
 किं त्विदं स्यादिति च सा विवेक्षन्ती समन्ततः । ददृशे केशवं
 देवी सहसा लोकभावनम् ॥ २० ॥ मुह्यन्ती च तदोवाच सहसा-
 स्त्राभिलेक्षणा । अबतित्क्तेव रोपेण वभूव प्रणयान्विता ॥ २१ ॥
 सा प्रस्फुरितचार्वोष्ठी निःश्वस्याधोमुखी तदा । मुहूर्तमसितापांगी
 तस्थान्नामुखी शुभा ॥ २२ ॥ निवध्य भ्रुकुटिं वामां सम्यग्वि-
 क्षिप्य लोचने । निवेश्य वदनं हस्ते शोभसोत्पन्नवीद्धरिः ॥ २३ ॥

श्रीकृष्णको नहीं देखा और अपनी दासियोंसे सुगन्धके आनेका
 कारण पूछा ॥ १७ ॥ दासियोंने पूछने पर भी कुछ नहीं कहा
 और पृथ्वी पर घुटने टेक नीचेको मुख करके हाथ जोड़ स्थित
 होगई ॥ १८ ॥ इस अपूर्व वातको देख कर अर्थात् सुगन्ध
 आनेके किसी कारणको न देख कर उसने समझा, कि-पृथ्वीमें
 से ही गन्ध निकल रही है फिर उसने विचारा, कि-पृथिवीमेंसे
 ऐसी श्रेष्ठ सुगन्धि कैसे निकल रही है ॥ १९ ॥ और उसने यह
 यथा बात है इस बातको जाननेके लिये वारम्बार देखा इतनेमें
 ही उस देवीको लोकभावन श्रीकृष्ण सहसा दीख गए ॥ २० ॥
 उस समय उसके नेत्रोंमें आँसू भर आए और उसने सहसा मोह
 में भर कर कुछ भाषण क्रियां तथा वह प्रणयवती स्त्री रोपके
 कारण बड़ी तीखी बन गई ॥ २१ ॥ उस समय उसके सुन्दर
 थोठ फड़कने लगे और उसने नीचेको मुख करके सांस खींचा
 फिर उस गौर वर्णके अंगों वाली शुभ स्त्रीने मुहूर्त भरमें ही
 अपने मुखको दूसरी ओर कर लिया ॥ २२ ॥ उस समय
 श्रीकृष्णने अपने मुख पर हाथ रख कर बाईं भोंके मटका कर
 नेत्रोंसे चारों ओर देख कर उससे कहा, कि-तुम बड़ी अच्छी

तस्याः सुस्ताय नेत्राभ्यां वारि प्रणयकोपजम् । कुशेशयगलाशाभ्यः
 मवश्यागजलं यथा ॥ २४ ॥ समुत्पत्य जलं तत्र पतित वदन-
 युजात् । प्रतिग्रह पद्मान्तः कराभ्यामतिसत्वर. ॥ २५ ॥ अथोरसि
 पतत्तोग श्रीवत्सकोम्बुजेक्षणः । प्रियानयनजं देवः परिमृज्येद-
 मब्रवीत् ॥ २६ ॥ स्रवत्यसिनपत्रान्ति किमर्थं तव भामिनि । तोयं
 सुन्दरि नेत्राभ्यां पुष्कराभ्यामिन्दोदकम् ॥ २७ ॥ मभात्रो पूर्ण-
 चन्द्रस्य मध्यान्हे पकस्य च । विभर्ति तव किं ब्रह्मं वपुस्तव
 मनोहरे ॥ २८ ॥ किमर्थं कौकुम वासो महारजतमेव च । नानु-
 गृह्णासि तुश्रोणि शुक्लं वासोनुगृह्यते ॥ २९ ॥ वासस्येते तवा-
 भीष्टे महारजतकौकुमे । देवाभिममनादूर्ध्वं शुक्लं नेष्टं हि तत्
 स्त्रियाः ॥ ३० ॥ किं चानाभरणं गात्रं सुगात्रि तव कथ्यताम् ।

मालूम पड़ती हो ॥ २३ ॥ जैसे कनेरके और ढाकके पत्रसे ओस
 का जल गिरता है इसी प्रकार उसके नेत्रोंमेंसे प्रेममय कोपसे
 भरा हुआ जल बहने लगा ॥ २४ ॥ उसके मुखकमलसे गिरते हुए
 जलको कमलकी समान नेत्र वाले श्रीकृष्णने शीघ्रतासे जाकर
 अपने हाथों पर लेलिया ॥ २५ ॥ श्रीवत्सके चिन्ह वाले कमल-
 नेत्र श्रीकृष्णने मियाके नेत्रोंसे उत्पन्न हुए उस गिरते हुए जल
 को अपने वक्षःस्थलमें मल कर यह कहा, कि-२६ हे श्वेत कमल
 के समान भामिनी ! हे सुन्दरी ! जैसे कमलोंमेंसे जल झड़ता
 है इसी प्रकार तुम्हारे नेत्रोंमेंसे आँसू क्यों बह रहे हैं ॥ २७ ॥
 हे मनोहरे ! तुम्हारा मुख प्रभातकालके पूर्ण चन्द्रमाकी और
 मध्याह्नकालके कमलकी शोभाको क्यों धारण कर रहा है २८
 हे सुश्रोणि ! तुमने पीला और लाल वस्त्र और कुसुम्ही वस्त्र
 किस लिये त्याग दिया है और श्वेत वस्त्र क्यों धारण किया
 है ॥ २९ ॥ कुसुम्ही और लाल पीले वस्त्रोंको तुम सर्वदा अच्छा
 समझती थी स्त्रीके लिये श्वेत वस्त्र तो देवपूजाके समय ही

चित्रकस्थानगाक्रान्तं कस्मादवर्षाणि ॥३१॥ श्वेतेन तव पादेन
 वाससा प्रियदर्शने । ललाटं सेव्यते कस्माच्चन्दनेन सुगन्धिना ३२
 सरसेनायतापाङ्गि कान्तेन हृदयप्रिये । प्रभोपमर्दं केनापि कारणे-
 नाननस्य च । करोषि गम वाऽत्यर्थं मनो ग्लापयसि प्रिये ॥३३॥
 प्रसूनशर्चन्दनरसः कपोलमणयी तव । पत्रलेखासपत्नत्वं प्राप्तो
 नातिचिराजते ॥ ३४ ॥ रत्नैश्चाभरणैर्मुक्ता तव ग्रीवा न शोभते ।
 ग्रहनक्षत्ररहिता अरिवाच्यक्तशारदी ॥ ३५ ॥ पूर्णचन्द्रसपत्नेन
 स्मरेणाबहुभाषिणा । किमु नो भाषसे माद्यमुखेनोत्पलगन्धिना ३६
 अर्थाक्षणापि हि तावन्मां किमर्थं न निरीक्षसे । मुञ्चभ्येव म-
 निःशवासं तोयगञ्जनदुर्दिनम् ॥३७॥ अलमिन्दीवरश्यामे रुदितेन

उचित हैं ३० हे सुन्दर अंगोंवाली! यह तो बताओ तुम्हारे शरीर पर
 गहने क्यों नहीं हैं और इस समय हे धूसरवर्णकी कान्तिवाली !
 तुम्हारे चित्रकस्थान (कपोल आसुओंसे) क्यों व्याप्त होरहे है ३१
 हे प्रियदर्शन ! तुम अपने पैरों पर श्वेत वस्त्र क्यों डालरही हो
 और हे आयतापाङ्गी ! तुमने अपने गस्तक पर सुगन्धित सरस
 चन्दन क्यों लगा रखा है और हे प्रिये ! तुम्हारे मुखकी कान्ति
 फीकी क्यों पड़ रही है इससे मेरा मन बड़ा उदास हो रहा
 है ॥३२॥३३॥ और यह सरस चन्दन बह कर तुम्हारे कपोलोंसे
 मेल कर रहा है यह पत्रलेखा की सौत बगकर अच्छा नहीं मालूम
 पड़ता ॥ ३४ ॥ रत्न और गहनोंसे रहित तुम्हारी गर्दन ग्रह
 और नक्षत्रोंसे रहित वर्षाष्टतुके आकाशकी समान शोभा नहीं
 देती ॥३५॥ कपनहीसी गन्ध देने वाले चन्द्रमासे साँतिया डार
 रखनेवाले बड़ी २ बातें करने वाले अपने खिले हुए मुखसे
 आज तुम मुझसे क्यों नहीं बोलती ३६ तू श्वास खेंनकर सुरमे
 से मैले हुए भौंभुओंको तो बहा रही है किन्तु मेरी ओर अभी
 भौंभुमे भी क्यों नहीं देखगी, हे इन्दीवरश्यामे ! हे मनस्विनी !

मनस्विनि । जलमञ्जनकल्पापं मा मोक्षीराननद्विपम् ॥ ३८ ॥
 त्वदीयोऽहं यदा देवि उपातो जगति किंकरः । नाज्ञापयसि किं
 मां त्वं पुरेव वरवर्णिनि ॥ ३९ ॥ किमकार्षमहं देवि विप्रियं तव
 भामिनि । येनातिपात्रमात्मानमायासयसि सुन्दरि ॥ ४० ॥ मनसा
 कर्मणा वाचा न त्वामतिवराभ्यहम् । सर्वथा सर्वचार्षङ्गि सत्य
 मेन्द्र व्रवीम्यहम् ॥ ४१ ॥ बहुमानोपमान्यासु स्त्रीषु सर्वासु
 शोभने । स्नेहश्च बहुमानश्च त्वामृतेऽन्यासु नास्ति मे ॥ ४२ ॥
 नैव त्वां मदनो जह्यामृतेणि मयि मामकः । इति मे निश्चितं विद्धि
 चेतः सुरसुनोगमे ॥ ४३ ॥ जमाद्यश्च मेदिन्यां शब्दाद्याश्चाम्बरे ।

अब तुम रीना झाड़ दो और मुखसे द्वेष करने वाले अञ्जनके
 जलसे काले जलको न छोड़ो ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ हे देवी ! जब
 मैं तुम्हारा जगत्में प्रसिद्ध किंकर विद्यापान हूँ तब भी हे वर-
 वर्णिनी ! तुम पहलेकी सगान मुझे आज्ञा क्यों नहीं देती ३९
 हे देवि ! हे भामिनि ! हे सुन्दरी ! मैंने तुम्हारा क्या अप्रिय-
 कार्य किया है जिससे कि-तुम अपनी आत्माको बड़ा ही कष्ट
 देरही हो ॥ ४० ॥ मैं मन चाणी और कर्ममे भी तुम्हारी
 आज्ञाका उल्लंघन नहीं करता हूँ हे सर्वसुन्दराङ्गी ! यह बात मैं
 सर्वदा सत्य ही करता हूँ ॥ ४१ ॥ हे बड़ा भारी मान
 करने पर माननेमें आने वाली सब स्त्रियोंसे अधिक शोभने !
 मैं तुमसे अधिक और किसीसे इतना स्नेह नहीं करता हूँ तथा
 और किसीका इतना मान भी नहीं करता हूँ ४२ हे देवताओं
 की पुत्रियोंकी सगान भामिनी ! मेरे मनमें यह पक्का विचार है,
 कि-मेरे मरने पर भी मुझसे सम्बन्ध रखने वाला मदन (प्रेम)
 तुमको नहीं छोड़ेगा ४२ जैसे पृथिवीमें जपा आदि गुण और
 आकाशमें शब्द आदि निश्चल होकर रहते हैं हे कमलकोपके
 आभाकी सगान आभावाली स्त्री ! इसी प्रकार मेरा प्रेम भी

गुणाः । ध्रुवं पंकजगर्भाभे त्वयि स्नेहस्त्वथा मम ॥ ४४ ॥ रुचि-
रग्नौ यथा दिव्या प्रभा चैव दिवाकरे । कान्तिश्च शाश्वती चन्द्रे
स्नेहस्त्वयि तथा मम ॥ ४५ ॥ एवंवादिनमात्मेष्टं सत्यभामा
जनार्दनम् । शनैरुवाच नेत्राभ्यां प्रमृज्य सुभगा जलम् ॥ ४६ ॥
मदीयस्त्वं मियो ह्यासीन्मम नित्यं मनः प्रभो । अथ साधारणं
स्नेहं त्वयि तावद्गतास्म्यहम् ॥ ४७ ॥ नाज्ञासिपमहं पूर्वमनित्यं
कालपर्ययम् । अथ लोत्सगणिं कृत्स्नामवगच्छामि न ध्रुम् ॥ ४८ ॥
अमृताया द्वितीयोऽपि जन्मोऽहि मम सर्वथा । किमत्र बहुनोक्तेन
हृदयं वेद्मि तेऽच्युत ॥ ४९ ॥ वारूमात्रमेव पश्यामि माधुर्यं
संप्रयुज्यसे । मयि स्नेहश्च कृत्स्नस्तवान्पत्र न कृत्रिमः ॥ ५० ॥
ऋजुस्वभावां भक्तां च सर्वथा पुरुषोत्तम । अवजानासि जानन्

तुभमें अटल है ४४ जैसे अग्निमें कान्ति और सूर्यमें दिव्यप्रभा
और चन्द्रमामें शाश्वती चादनी रहती है इसी प्रकार मैं तुम्हसे
प्रेम करता हूँ ४५ इस प्रकार अपने अनुकूल बोलने हुए जनार्दन
श्रीकृष्णसे सुभगा सत्यभामाने अपने नेत्रोंका जल पूँछ कर
धीरे २ कहा, कि-४६ हे प्रभो ! मेरे मनमें तो सर्वदा यही बात
सगाई रहती थी, कि-आप मेरे प्रिय हैं परन्तु आज मैं साधारण
स्नेहकी पात्र हो गई हूँ ४७ मैं यह पढ़ते नहीं जानती थी कि-
यह सब अनित्य है और सगण बदला रहता है किन्तु आज मैं
सारे संसारको अनित्य ही जानती हूँ ४८ मैं अभी नहीं मरी थी
तब भी मेरे लिये तुम दूसरे हो गए इसी प्रकार मैं भी दूसरी हो
गई हूँ मैंने समझ लिया है, कि-सर्वथा-अब मेरा (दूसरा ही)
जन्म होगा है हे अच्युत ! उहुन बात कहनेसे अब क्या है मैं
आपको खूब पहचानती हूँ ४९ मैं देखती हूँ, कि-अब तुम नापी
से ही माधुरता दिग्वाते हो तुम मुझसे बनावटी स्नेह रखते हो
और दूसरियोंसे बनावटी स्नेह नहीं करते हो ५० हे पुरुषोत्तम !

गां कैतवीं वृत्तिमास्थितः ॥ ५१ ॥ एतावत् खलु पर्याप्तं दृष्टं
 द्रष्टव्यमव्ययम् । श्रुतं चाप्यथ यच्छ्रान्तं दृष्टः स्नेहफलोदयः ५२
 यदि त्वहमनुग्राह्या मामनुज्ञातुमर्हसि । तपस्येव परं कृत्वा निश्चयं
 पुरुषोत्तम ॥ ५३ ॥ भर्तुश्चन्द्रेण नारीणां तपो वा व्रतकानि च ।
 निष्फलं खलु यद्भर्तुश्चन्द्रेण क्रियेन हि ॥ ५४ ॥ इतीदमुक्त्वा
 पुनरेव शोभना मुपोच तोगं नयनोद्भवं सती । ग्रहाय पीतं हरि-
 वाससः शुभा पटान्तगाभाय मुखे शुचिस्मिता ॥ ५५ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिर्षो विष्णुपर्वणि पारिजात-
 हरणं षट्पष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥

वैशम्पायन उवाच । नारायणः सत्यभामां पुनरेवैव भारत ।
 प्रोवाच मणयात् क्रुद्धामभिमानवतीं सतीम् ॥ १ ॥ श्रीभगवानु-
 वाच । दहतीव ममाङ्गानि शोकः कमललोचने । किमु तत् कारणं

तु। कपटकी वृत्ति धारण कर मुझ सरलस्वभावाका सर्वदा
 अगनी भक्त जानकर भी तिरस्कार कर रहे हो ५१ वस सुनना
 और आपका कभी नष्ट न होने वाला देवना और दीखना हो
 चुका क्योंकि-आपके स्नेहके फलका उदय देख लिया ५२
 हे पुरुषोत्तम ! यदि आप मुझे कृपाकी पात्री समझते हैं तो मुझे
 बड़ा भारी तप करने की ही आज्ञा दीजिये ॥ ५३ ॥ क्यों कि-स्वामी
 की इच्छाके बिना स्त्रियोंका किया हुआ तप वा व्रत सब निष्फल
 हो जाता है, इस लिये स्त्रियोंकी स्वामीकी इच्छानुसार ही तप
 आदि करना चाहिये ५४ वह पवित्र हास्यवाली शोभना स्त्री
 इस प्रकार कह कर श्रीकृष्णके वस्त्रके धोरसे अपने मुखको ढक
 कर अपने नेत्रोंसे फिर आँसू बहाने लगी ५५ द्विपासठवाँ
 अध्याय समाप्त ६६

वैशम्पायनजीने कहा, कि-हे भरतवंशी राजन् ! नारायणने
 मणयके कारण कोपमें भर कर अभिमान करती हुई सत्यभामा

येन त्वमेवमतिविकलवा ॥ २ ॥ शापितासि मम प्राणैराचक्ष्वा-
 नत्ययो यदि । श्रोतव्यं यदि भक्तेन भर्त्रा सर्वाङ्गशोभने ॥ ३ ॥
 ततः प्रोवाच भर्तारं सत्या सत्यव्रते स्थितम् । वाष्पगद्गदपा-
 चाचा तथैवाधोमुखी स्थिता ॥ ४ ॥ त्वयैव स्थापितं पूर्वं सौ-
 भाग्यं मम मानद । जगत्यमलपत्राक्ष यत् ख्यातं केशिनाशन ५
 शिरो वहामि चेष्टत्वात्तवाहं देव गर्विता । सर्वसीमन्तिनीमध्ये
 स्पृहणीयास्मि सर्वथा ॥ ६ ॥ साहमद्यावहास्यास्मि सपत्नीनां
 जनस्य च । इति प्रेष्याभिराख्यातं श्रुत्वा तथ्यं ततस्ततः ॥७॥
 यत् पारिजातकुसुमं दत्तवान्नारदस्तव । तत्किलेष्टजने दत्तं
 त्वयाऽहं परिवर्जिता ॥ ८ ॥ रत्रातिशयदानेन यस्याम-

से फिर इस प्रकार कहा था ॥ १ ॥ श्रीभगवान् ने कहा, कि-
 हे कमललोचने ! जिस कारणसे तू बड़ी व्याकुल हो रही है वह
 क्या कारण है इस बातका शोक मुझे जलाए डालता है ॥ २ ॥
 सर्वाङ्गशोभने ! यदि तू अपने भक्त अपने स्वामीको उस बातके
 सुननेका पात्र समझती हो यदि तू मेरा विनाश नहीं चाहती हो
 तो मैं तुझे अपने प्राणोंकी शपथ दिलाकर तुझसे धूमता हूँ ३
 तदनन्तर उसी प्रकार नीचेको मुखकर खड़ी हुई सत्यभागाने
 रुंधी हुई वाणीमें सत्यव्रतमें स्थित अपने पतिसे कहा, कि-४
 हे मानको देनेवाले निर्मल पत्रकी समान नेत्रोंवाले केशिनाशन
 श्रीकृष्ण! जगत्में जो मेरा सौभाग्य प्रसिद्ध है उसको आपने ही
 स्थापित किया है ५ हे देव ! आपसे गर्वित होनेके कारण मैंने
 अपने शिरको उठाकर इस बातको प्रसिद्ध कर रखा है, कि-सब
 सीमन्तिनियोंके बीचमें मैं स्पृहणीय हूँ ॥६॥ अब दासियोंके सत्य
 वचनको सुनकर अब मैं सीतोंमें और मनुष्योंमें हास्यकी पात्र
 हो जाऊँगी ॥ ७ ॥ नारदजीने आपको जो कल्पवृक्षका पुष्प
 दिया था उसके आपने अपने प्रियजनको दे दिया और मुझको

भयधिकः किल । स्नेहश्च बहुमानश्च प्रकाशं गमितस्त्वया ॥ ९ ॥
 तामस्तौपीत् समक्षन्ते प्रिया स किल नारदः । तमश्रौपीश्च हृष्ट-
 स्त्वं मियायाः संस्तवं किल ॥ १० ॥ स्तोतव्यो यदि तावत् स
 नारदेन तत्राग्रतः । दुर्भगोऽयं जनस्तत्र किमर्थमनुशब्दितः । ११ ।
 प्रणयस्य रसं दत्त्वा पश्चात्तापः प्रभो यदि । अनुज्ञां मे मयच्छस्व
 तपः कर्तुं प्रसीद मे ॥ १२ ॥ स्वप्ने नापि न हृष्टाऽहं श्रद्धया
 पुष्करेक्ष्ण । यदन्यदेव निवृत्तमश्रौषं पश्यतस्तव ॥ १३ ॥ कामं
 कामोऽस्तु तस्यैव मुनेरतुलतेजसः । अत्र मन्युस्तु मे देव सांनिध्यं
 तव तत्र यत् ॥ १४ ॥ मानार्थं जीव्यते लोके सद्भिरित्युक्तवानसि ।

छोड़ दिया ॥ ८ ॥ आपने श्रेष्ठ रत्नका दान करके रुक्मिणीकी
 ओर स्नेह और अपना मान प्रकट कर दिया है ॥ ९ ॥ नारदजी
 ने भी आपकी उस प्रियाकी आपके सामने ही स्तुति की थी
 और आपने भी प्रसन्न होकर उस अपनी प्रियाके स्तोत्रको सुना
 था ॥ १० ॥ वह आपके सामने नारदजीसे स्तुति पानेका पात्र है
 परन्तु नारदजीने मुझ दुर्भाग्यका नाम उसके पीछे क्यों लिखा
 था हे प्रभो! यदि आपको मण्यका रस देकर पश्चात्ताप होता हो
 तो तब आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे तप करनेकी आज्ञा
 दीजिये १२ हे पुष्करेक्ष्ण ! मैं तो स्वप्नमें भी ऐसा कभी नहीं
 विचारती थी, कि-आपका प्रेम कहीं और होगा परन्तु आपके
 देखते हुए ही जो बात मैंने सुनी थी उससे तो कुछ औरका
 और ही देख रहा है १३ अतुलतेजस्वी मुनिकी जो रुक्मिणीकी
 स्तुति करनेकी इच्छा थी वह चाहे कुछ थी परन्तु हे देव ! मुझे
 तो इस बातका बड़ा क्रोध है, कि यह बात आपके सामने हुई
 (अर्थात् आपको वह स्तुति नहीं सुननी चाहिये थी) १४ आपने
 कहा है, कि-सज्जनोंके इस लोकमें मानके लिये जीवित रहना
 चाहिये अब इस प्रकारका वर्ताव होने पर मानरहित होकर मैं

तदेवं सति नेच्छामि जीवितुं मानवजिता ॥ १५ ॥ मगाभव-
द्यतो रक्षा भयमद्य ततो गम । सर्वतो रक्षते यो गां स गां नाद्या-
भेरक्षति ॥ १६ ॥ हा गतिं कां गमिष्यामि त्यक्त्वा देव त्वया
विभो । कुमुदतीगतां नूनं गतिं यास्याम्यसंगता ॥ १७ ॥ किम-
कार्पमहं मोहादीश्वराणां प्रियाप्रियम् । प्रिया भूत्वाऽप्रिया भूता
यद्यहं तत्र मानद ॥ १८ ॥ वसन्तकुसुमैश्चित्रं सदा रैवतकं गिरिम् ।
प्रिया भूत्वाऽप्रिया भूता कथं द्रक्ष्याम्यहं पुनः ॥ १९ ॥ परपुष्ट-
स्वनोन्मिश्रं पुष्पगन्धवहं शुचिम् । कथं नागानिलं द्वेष्या सेवेयं
दुर्भगा सती ॥ २० ॥ जलक्रीडां तर्वाकस्था देव कृत्वा महोदधौ ।

जीवित रहना नहीं चाहती ॥ १५ ॥ जिस ओरसे मेरी रक्षा
होती थी उस ओरसे अब मेरे ऊपर भय पड़ने लगा है जो मेरी
सब ओरसे रक्षा करते थे उन्होंने अब मेरी रक्षा करना छोड़
दिया है ॥ १६ ॥ हे देव ! हे विभो ! आपके त्यागने पर न
जाने मेरी अब क्या गति होगी आपके बिना मेरी गति कुमुद-
वतीसी ही होगी (अर्थात् जैसे कुमुदनी चन्द्रपाकी किरणोंके
पड़नेसे जैसे खिल उठती है और किरणोंका स्पर्श न होने पर
जैसे बन्द होजाती है इस प्रकार मैं भी मुरझा जाऊँगी अथवा
अजकी भार्या कुमुदवतीकी समान ही मेरी गति होगी अर्थात् मैं
अपने स्वामीके सामने ही मरजाऊँगी) ॥ १७ ॥ मैंने मोहवश
ऐश्वर्यशाली देवताओंका क्या प्रिय और अप्रिय किया था जिस
से कि-हे मानद ! मैं आपकी प्रिया होकर भी अब अप्रिया हो
गई हूँ ॥ १८ ॥ प्रिय होकर अप्रिय होनेके बाद मैं वसन्तऋतु
के कुसुमोंसे विचित्र रैवतगिरिको फिर किस प्रकार देख
सकूँगी ॥ १९ ॥ मैं दुर्भगा आपकी द्वेष्या होकर कोकिलाओंके
स्वरसे मिले हुए पुष्पोंकी गन्धको बढ़ाने वाले पवित्र वायुका
सेवन कैसे कर सकूँगी ॥ २० ॥ हे देव ! मैंने आपकी गोदीमें

कथं दौर्भाग्यमापन्ना पश्येयमपि सागरम् ॥ २१ ॥ सात्राजिति
 प्रिया नान्या त्वत्तो मेऽस्तीति चिद्धि माम् । यदाऽबोचः वच
 तथातमथवा कः स्मरिष्यति ॥ २२ ॥ यद्द्राक्षीद्धि मां स्वश्रुर्वहु-
 मानेन नन्दिनी । अब्रजातां त्वया राज्ञी नूनं दौर्भाग्यकशिताम् २३
 किं नु गूढेन मे प्रेम्णा सुस्निग्धेनापि मानद । यत् समानां जनी-
 देवो मां न पश्यति नित्यदा ॥ २४ ॥ नाहं त्वां कितभं धूर्त-
 मज्ञासिपगरिन्दम । अद्य ज्ञातोसि तत्पत्तञ्चञ्चलो जनचञ्चकः २५
 स्वरचण्येन्द्रिताकारान्निगूढो देव यत्नतः । चौर ज्ञातोसि तत्पत्त-

समुद्रमें जलक्रीड़ा की है अब दुर्भागिनी होनेके कारण मैं उस
 समुद्रको भी कैसे देखूंगी ॥ २१ ॥ आपने मुझसे कहा, था,
 कि-हे सात्राजिति ! तुझसे अधिक मुझे और कोई मिय नहीं है
 तू मुझे ऐसा समझने वाला जान वह तुम्हारा वचन अब कहाँ
 गया ? अथवा (मेरे मरने पर) मुझे स्मरण ही कौन करेगा २२
 मेरी नन्दिनी सासने पहले मुझे बड़े आदरकी दृष्टिसे देखा था
 अब वह रानी आपसे अपमान पानेके कारण मुझे दुर्भाग्यवश
 दुबली हुई देखेगी ॥ २३ ॥ हे मानद ! गुप्त रीतिसे मेरे स्निग्ध
 प्रेम करनेसे भी क्या लाभ है? क्योंकि आप मुझे सर्वदा सबकी
 समान भी नहीं देखते ॥ २४ ॥ हे अरिदमन ! मैं आपको
 नहीं जानती थी, कि-आप कपटी और धूर्त है आज आपने
 उसका पत्त लेकर अपनी चञ्चलता दिखलाई इस लिये मैंने
 समझा कि-आप मनुष्योंको ठगा करते हैं ॥ २५ ॥ हे देव !
 आप स्वर वर्ण चेष्टा और आकारसे गुप्त रहते थे परन्तु
 हे चोर ! मैंने जान लिया, कि-आप उसका पत्त लेनेवाले चाणी
 मात्रके ही मधुर और शठ हैं (उपरोक्त दोनों श्लोकोंका आध्या-
 त्मिक तात्पर्य यह है, कि-हे अरिदमन ! अर्थात् संसार रूपी
 शत्रुके नाशक ! इससे पहले मैंने आपको धूर्त इत्यादिरूप आपको

वाङ्मात्रगधुरः शठः ॥ २६ ॥ एवमीर्ष्यावशां माता देवीं सात्रा-
जितीं हरिः । अभिमानवतीं देवः सान्त्वपूर्वमथाब्रवीत् ॥२७॥
मैं वं पद्मपलाशाक्षि प्राणेश्वरि वद प्रिये । किमत्र बहुनोक्तेन त्व-

सार्वात्म्यको “ब्रह्मादाशा ब्रह्मदासा ब्रह्ममे किं तवा उत”
इत्यादि आगमसे भी नहीं जाना था परन्तु आज मैंने ज्ञान लिया,
कि-आप जन्मादिहीनत्व पत्तमें चञ्चल हैं मेरी सपत्नी मायाके
पत्तमें ही आप चञ्चल हैं अर्थात् मायानिशिष्ट चिद्रूप आपका
मायांशसे ही चाञ्चल्य और बञ्चकत्व है चिदंशमें आप
निर्विकार हैं, छद्मीसर्वे श्लोकका तात्पर्य यह है, कि मुझ
वाणी और मनके अगोचरको भी तूने किसप्रकार जान लिया
तो इसका उत्तर यह है, कि-हे देव ! आप स्वर वर्ण इङ्गित और
आकार आदि लिङ्गोंसे अतिमूढ़ रहते थे तो भी मैंने आप
शठ और उदासीन हैं यह ज्ञान जान ली है । भान यह है, कि
बागादिकही उद्बोधरूपासे मैं आपको संघात निशिष्टरूपसे प्रत्य-
गात्मारूपमें नित्य जानती थी परन्तु आप सात्त्विकी समान असंग
हैं यह बात मैंने अब ही जानी है इस प्रकार चोरकी समान
प्रच्छन्न होनेसे गहों पर चोर सम्बोधन दिया है और मायाके
पत्तमें ब्रह्मासे लेकर लौकिक विषयों तकके ऐश्वर्यमें आप रमण
कर रहे हैं इस ज्ञानका आप वाणी मात्रसे ही आप मधुर भाषण
करते हैं वास्तवमें अकर्ता होनेसे आपमें माधुरी है ही नहीं आप
अभोक्ता होनेसे शठ अर्थात् उदासीन हैं । विश्वकोशमें लिखा
है कि-शठ शब्द मध्यस्थ पुरुष धूर्त और धतूरेका भी वाचक है
“शठो मध्यस्थपुरुषे धूर्तधत्तूरयोरपि”) ॥ २६ ॥ इस प्रकार
ईर्ष्याके वशमें हुई अभिमानवती देवी सत्यभोगासे श्रीकृष्णने
समझाते हुए यह बात कही, कि-॥ २७ ॥ हे प्राणेश्वरी प्रिये !
तू ऐसा मत कह दे कमलके पत्तेकी समान नेत्रवाली ! अब बहुत

दीयमवगच्छ माम् ॥ २८ ॥ तत्पारिजातकुसुमं तस्या देवि ममा-
 ग्रतः । नारदो मत्प्रियं कुर्वन् मुनिरविलष्टकर्मकृत् ॥ २९ ॥ दाक्षि-
 ण्यादनुरोधाच्च दत्तवान् नात्र संशयः । प्रसीदैकापराधं मे मर्ष-
 यस्व शुचिस्मिते ॥ ३० ॥ पारिजातकपुष्पाणि यदीच्छस्यति-
 कोपने । तदादातास्मि सुभ्रोणि सत्यमेतद् व्रवीमि ते ॥ ३१ ॥
 स्वर्गास्पदादानयित्वा पारिजातं द्रुमेश्वरम् । गृहे ते स्थापयि-
 ष्यामि यावत् कालं त्वमिच्छसि ॥ ३२ ॥ एवमुक्त्वा तु हरिणा
 मोवाच हरिवल्लभा । यद्येवं सद्रुमः शक्यस्त्विहानयितुमच्युत ३३
 मन्पुरेण प्रसृष्टो हि भवेद्बहुगुणं मम । सीगन्तिनीर्ना सर्वासा-
 मधिका स्यामधोत्तज ॥ ३४ ॥ तथास्तु प्रथमः कल्प इति तं
 मधुसूदनः । प्रोवाचाप्रतिमो देवो जगतः प्रभवाप्ययः ॥ ३५ ॥

वातोंसे क्या लाभ है तू मुझे अपना ही जान ॥२८॥ हे देवि !
 मेरे और उसके सामने सरलतासे कर्म करने वाले नारदमुनिने
 मेरा मिय करनेकी इच्छासे वह कल्पवृक्षका पुष्प (दिया था) २९
 मैंने चतुरतासे और अनुरोधवश उसको वह पुष्प देदिया इसमें
 कोई सन्देह नहीं परन्तु हे शुचिस्मिते ! तू मेरे एक अपराधको
 तो क्षमा करदे और अब प्रसन्न होगा ॥ ३० ॥ हे बड़ा भारी
 कोप करने वाली ! यदि तू कल्पवृक्षके पुष्पोंको चाहती है तो हे
 सुभ्रोणि ! मैं सत्य कहता हूँ कि-मैं तुम्हें लाकर दे दूँगा ॥३१॥
 तू जब तक चाहेगी तब तकके लिये ही मैं वृक्षराज कल्पवृक्षको
 स्वर्गसे लाकर तेरे घरमें स्थापित करदूँगा ३२ श्रीकृष्णके इस
 प्रकार कहने पर विष्णुकी गियाने कहा, कि हे अच्युत! यदि वह
 वृक्ष यहाँ पर आसकता है तो मैं इस क्रोधको त्यागती हूँ और
 मेरा बड़ा उपकार होगा, और हे अधोत्तज ! मैं सम्पूर्ण स्त्रियोंमें
 श्रेष्ठ हो जाऊँगी. ३३ ३४। जगत्की उत्पत्ति और प्रलायके स्थान
 अद्वितीय देवता मधुसूदनने इसको दाद दे देनेका यह सहज उपाय

तथेत्युक्तेति कृष्णेन तुतोप सगितिजय । सत्यभामा सतामिष्टा
 कंसनाशनवल्लभा ॥ ३६ ॥ ततः स्नातो जगन्नाथः सर्वेशः
 सर्वभाननः । चकारावश्यकं सर्वं सर्वकामप्रदः सताम् ॥ ३७ ॥
 दध्यौ च नारदं देवः स्नातो देवमुनिर्नृप । अभ्याजगाप स्नानाति
 मुनिश्रेष्ठो महोदधी ॥ ३८ ॥ तमागतं नरपते सतां गतिरधोत्तमः ।
 सत्यया सह धर्मात्मा यथान्निधिरपूजयत् ॥ ३९ ॥ पादौ प्रक्षाल-
 याम्बुजैः स्नानेः सात्राजिती स्नयम् । जलं देवः स्वयं कृष्णो
 भृङ्गोरणददौ तदा ॥ ४० ॥ अथोपकल्पयामास सुखासीनाय
 केशवः । परमान्नं स मुनये प्रयत्नात्मा जगद्गुरुः ॥ ४१ ॥ तल्लोक-
 कर्त्रा सत्कृत्य दत्तं मुनिरुदारधीः । बुभुजे वदता श्रेष्ठः श्रद्धया
 परया युतः ॥ ४२ ॥ उपस्पृश्य ततस्तप्तः प्रददौ चाशिपः प्रभोः ।

हे यह सगभ्रकर उन्होंने "तथास्तु" कह दिया ३५ हे समितिजय !
 श्रीकृष्णके " तथास्तु" कहने पर सज्जनोंकी इष्ट कंसके नाशक
 श्रीकृष्णकी प्यारी सत्यभामा सन्तुष्ट होगई ॥ ३६ ॥ तदनन्तर
 सज्जनोंके सब मनोरथोंको पूर्ण करने वाले सर्वपूजित सबके
 स्वामी जगन्नाथने स्नान करके सब आवश्यक कर्म किये ३७
 और हे राजन्! स्नान करनेके अनन्तर नारदजीका ध्यान किया
 तब स्नान करनेके अनन्तर मुनियोंमें श्रेष्ठ देवर्षि नारदजी समुद्र
 के पास आगए ॥ ३८ ॥ हे राजन्! सज्जनोंकी गति धर्मात्मा
 श्रीकृष्णने उन आए हुए मुनिका सत्यभामाको साथमें लेकर
 शास्त्रानुसार सत्कार किया ॥ ३९ ॥ उस समय सत्यभामाने
 मुनिके चरणोंको स्वयं ही धुलाया और श्रीकृष्णने अपने, आप
 ही सुवर्णकी झारीसे उन पर जल दिया ॥ ४० ॥ तदनन्तर अपने
 आत्माको वशमें रखने वाले जगद्गुरु केशवने सुखपूर्वक बैठे हुए
 मुनिके लिये श्रेष्ठ भोजन तयार कराया ॥ ४१ ॥ वक्ताओंमें श्रेष्ठ
 महाबुद्धि नारदमुनिने लोकमें रचने वाले श्रीकृष्णके सत्कार-

ताश्च भीतेन मनसा प्रतिजग्राह केशवः ॥४३॥ ततः सानाजितौ
 देवीं प्रणतां नारदोऽब्रवीत् । प्रसार्य दक्षिणं हस्तं सजलं जल
 जेत्तणाम् ॥ ४४ ॥ यथेदानीं तथैव त्वं भव देवि पतिव्रता ।
 सविशेषं च सुभगा भव मत्तपसो वलात् ॥४५॥ इत्युक्त्वा मुनि-
 मुख्येन सत्यभामा हरिमिया । उत्तस्थौ महता युक्ता हर्षेण तु
 नराधिप ॥४६॥ स कृष्णोऽप्यभ्यनुज्ञां तु लब्ध्वा मुनिवरात्तदा ।
 बुभुजे विधत्सं धीमानममेयपराक्रमः । ४७॥ ततस्त्वावश्यकं कृत्वा
 सत्यभामापि भारत । अनुज्ञया तदा भर्तुर्विवेशान्तर्द्वहं मुदा ४८
 ततो विनिर्गतो देवी कृष्णस्यैवाभ्यनुज्ञया । स्थिता पार्श्वे च
 कृष्णस्य नमस्कृत्वा महात्मने । ततो मुहूर्तमासित्वा नारदः कृष्ण-

पूर्वक दिये हुए अन्नका परमश्रद्धासे भोजन किया ॥ ४२ ॥
 और फिर आचमन करनेके बाद तप्त हो मधु श्रीकृष्णको आशी-
 र्वाद दिये श्रीकृष्णने उन आशीर्वादोंको मसन्न मनसे ग्रहण
 किया ॥ ४३ ॥ तदनन्तर कमलके समान नेत्रोंवाली प्रणाम
 करती हुई देवी सत्यभामासे नारदजीने अपना दाहिना हाथ
 उठाकर कहा, कि—॥ ४४ ॥ हे देवी ! तू इस समय जैसी पति-
 व्रता है मेरे तपके बलसे तू इससे भी अधिक सौभाग्यवती और
 पतिव्रता हो ॥ ४५ ॥ हे राजन् ! मुनियोंमें मुख्य नारदजीके इस
 प्रकार कहने पर श्रीकृष्णकी प्यारी सत्यभामा बड़े भारी हर्षमें
 भरकर उठ खड़ी हुई ॥ ४६ ॥ मुनियोंमें श्रेष्ठ नारदजीसे आज्ञा
 लेकर अमेय पराक्रमी बुद्धिमान् श्रीकृष्णने विधसका अर्थात्
 देनता और ब्राह्मणसे शेष अन्नका भोजन किया ॥ ४७ ॥
 हे भारत ! तदनन्तर आवश्यक कार्य करनेके उपरान्त स्वामीकी
 आज्ञा पाने पर सत्यभामा भी मसन्न होकर रत्नवासमें चली
 गई ॥ ४८ ॥ तदनन्तर फिर श्रीकृष्णकी आज्ञा होने पर वह
 देवी तहाँसे निकल कर महात्मा श्रीकृष्णको प्रणाम कर

मब्रवीत् । आपृच्छे त्वां गमिष्यामि शक्रलोकमधोत्तज ॥ ५० ॥
 तत्रायं देवभीशानं नमस्कृत्य महेश्वरम् । गास्यान्त देवगन्धर्वा-
 स्तथैवाप्सरसां गणाः ॥ ५१ ॥ मासि मास्युचितं ह्येतन्महेन्द्र-
 सदने प्रभो । पूजार्थं देवदेवस्य गान्धर्वं नृत्यमेव च ॥ ५२ ॥
 अन्तर्हितो देवदेवः सोमः स प्रवरो विभुः । पश्यत्यमरमुख्येन
 कृतं भक्त्याद्रिघातिना ॥ ५३ ॥ निमन्त्रितोहं पूर्वेषुः पुष्पं दत्तं
 महाद्युते । पारिजातस्य भद्रन्ते तरुराज्ञो महान्मनः ॥ ५४ ॥ यदे-
 तदाहृतं स्वर्गात्स्वर्धं तु मया विभो । दैवोपभोग्यमेतद्धिं तरुराज-
 समुद्भवम् ॥ ५५ ॥ इष्टः स वृत्तः सततं शच्याः पुष्करलोचन ।
 सौभाग्यमावहत्येव पूज्यमानोऽपि नित्यशः ॥ ५६ ॥ पुण्यं कर्तुं
 तदा सृष्टः पारिजातो महाद्रुमः । अदित्या धर्मनित्येन कश्यपेन

श्रीकृष्णके पासमें खड़ी होगई ॥ ५६ ॥ तदनन्तर नारदजीने
 मुहूर्त भर ठहर कर श्रीकृष्णसे कहा, कि हे अधोत्तज ! मैं आप-
 से ब्रूकता हूँ, कि क्या मैं अब इन्द्रलोकमें चला जाऊँ ५०
 तहाँ पर आदिदेव ईशान महेश्वरकी मणाम करके देवता, गन्धर्व
 तथा अप्सराएँ गान गाया करती है ॥ ५१ ॥ हे गभो ! इन्द्रके
 गवनमें प्रतिमास देवदेव शंकरकी पूजा करनेके लिये इसी प्रकार
 प्रतिमास गाना और नाच हुआ करता है ॥ ५२ ॥ पर्वतविनाशक
 देवताओंमें मु० इन्द्रको उस समय अन्तर्धान रहने वाले महादेव,
 उमा और प्रमथ नामक गणोंके दर्शन होते हैं ॥ ५३ ॥ हे महा-
 कान्तिवान् ! उ-होंने मुझे अगले दिन निमन्त्रित कर वृत्तराज
 महात्मा पारिजातका पुष्प दिया था ॥ ५४ ॥ हे विभो ! मैं उस
 पुष्पको स्वर्गसे आपके लिये ले आया था, यह वृत्तराजका पुष्प
 देवताओंके भोगने योग्य है ॥ ५५ ॥ हे कमलनेत्र ! इन्द्राणी उस
 वृत्तको सर्वदा चाहा करती हैं और वह वृत्त पूजा करने पर
 सर्वदा सौभाग्य बढ़ाना रहता है ॥ ५६ ॥ धर्मनित्य महात्मा

महात्मना ॥५७॥ पुराऽदित्या महातेजास्तोपितः किल करुणः ।
 वरेण च्छन्द्यामास मारीचस्तपसो निधिः ॥ ५८ ॥ सोवाच
 सुभगा येन भवेयं मुनिसत्तम । स्वलंकृता कामतथ सर्वैरेव विभू-
 पण्यैः ॥ ५९ ॥ ईप्सितं गीतमृत्यं च भवेन्मम तपोधन । कुमारी
 नित्यदा चैव भवेयं तपसो निधे ॥ ६० ॥ विरजा शोकरहिता
 भवेयमिति नित्यदा । पतिभक्तिमती चैव धर्मशीला तथैव च ६१
 पारिजातं ततोऽस्त्राक्षीददित्याः प्रियकाम्यया । सर्वकामप्रदैः पुष्पै-
 रावृतं नित्यगन्धैः ॥ ६२ ॥ त्रिशाखं सर्वदा हर्यं सर्वभूत-
 मनोहरम् । सर्वपुष्पाणि दृश्यन्ते तस्मिन्नेव महाद्रुमे ॥ ६३ ॥
 ईदृशान्यपि पुष्पाणि विभर्त्येकापि रूपिणी । बहुरूपाणि चाप्य-
 न्या पद्मानि च ततोपरा ॥ ६४ ॥ मन्दागदपि वृक्षाच्च सारमुद्-

करुण्य और अदितिने पुष्पक व्रतके समय इस पारिजात नामक
 महावृक्षकी रचना की थी ॥ ५७ ॥ एक समय तपके निधि मगीचि-
 पुत्र महातेजस्वी करुणने अदितिके तपसे प्रसन्न होकर उसके
 घर देना चाहा ५८ तब उस सुभगाने कहा, कि-हे मुनिसत्तम !
 मैं जिससे सब विभूषण और कामनाओंसे अलंकृत रहूँ ५९
 और हे तपोधन ! जिससे मुझे अभीष्ट गाना और नाचना मिल
 सके, और हे तपोधन ! जिससे मैं सर्वदा कुमारी रहूँ ६० (और
 जिससे मैं) सर्वदा रजोगुणरहित और शोकरहित रहूँ और
 सर्वदा धर्मशील और पतिमें भक्ति वाली रहूँ (उस वर वा पदार्थ
 को मुझे दीजिये) ६१ उस समय करुणजीने अदितिका प्रिय
 करनेकी इच्छासे सर्वदा सब कामनाओंको पूर्ण करने वाले और
 सर्वदा गन्ध देने वाले पुष्पोंसे व्याप्त पारिजात नामक वृक्षकी
 कल्पनाकी ६२ उसकी तीन शाखायें हैं, वह सब प्राणियोंके मन
 को हरता रहता है और उस महावृक्षमें सब प्रकारके पुष्प दिखाई
 देते हैं ६३ वह एक रूपिणी (अदिति) तथा और (देवियों) भी

त्य कश्यपः । तस्मादेव तरुश्रेष्ठः सर्वेषां श्रेष्ठतां गतः ॥ ६५ ॥
 ततस्तत्र निवध्याथ कश्यपं प्रददा शुभे । अदितिर्मग पुण्यार्थं
 सौभाग्यार्थं तथैव च ॥ ६६ ॥ अदित्या कश्यपो दत्तः पुण्यार्थं
 च तथा मम । पुष्पदाम्ना वेष्टयित्वा कण्ठे पुण्यार्थमात्मवान् ६७
 निष्क्रयेण मया मुक्तः कश्यपस्तु तपोधनः । इन्द्रो दत्तस्तथेन्द्राण्या
 सौभाग्यार्थं ततो मम ॥ ६८ ॥ सोमश्चाप्यथ रोहिण्या ऋद्ध्या
 च धनदस्तथा । एवं सौभाग्यदी वृत्तः पारिजातो न संशयः ६९
 पारिजातो विष्णुपत्न्याः पारिजातेति शब्दितः । मन्दारपुष्पर्यद्युक्तो
 मन्दारस्तेन कथ्यते ॥ ७० ॥ कौण्यं दारुरित्याहुरजानन्तो यतो

ऐसे पुष्पोंको तथा दूसरे प्रकारके भी पुष्पोंको धारण करती
 है ६४ कश्यपने मन्दारवृत्तका भी सार लेकर इस वृत्तको बनाया
 है, इस लिये यह श्रेष्ठ वृत्त सर्वोंमें श्रेष्ठ होगया है ६५ तदनन्तर
 अदितिने कश्यपको साथ बाँध कर सौभाग्यके लिये पुण्यक व्रत
 में वह (वृत्त) मुझे दे दिया ॥ ६६ ॥ अदितिने आत्मवान्
 कश्यपजीके कण्ठमें पुष्पोंका हार डाल पुण्यके लिये उनको
 मेरे अर्पण कर दिया ॥ ६७ ॥ तदनन्तर तपोधन कश्यपको
 मैं भूष्य लेकर छोड़ दिया. तदनन्तर इन्द्राणीने भी अपने
 सौभाग्यके लिये इसी प्रकार मुझे इन्द्रका दान दिया था ६८
 इसी प्रकार रोहिणीने चन्द्रमाका और ऋद्धिने कुबेरका दान
 दिया था इस प्रकार यह पारिजातवृत्त सौभाग्य देने वाला है,
 इसमें कुछ स देह नहीं है ॥ ६९ ॥ यह वृत्त विष्णुपत्नी (गंगा)
 के परि (ऊपर) जात (उत्पन्न) हुआ था, इस लिये यह पारि-
 जात कहलाता है और मन्दारके पुष्पोंसे युक्त होनेके कारण
 मन्दार कहलाता (मानने योग्य और वियोग होने पर दारण
 करने वाले पुष्प मन्दार कहलाते हैं) ७० इस वृत्तको न जाननेके
 कारण मनुष्य कहते थे कि यह कौन दारु अर्थात् वृत्त है इस

जनाः । कोविदार इति रूपातस्ततः स सुगहानरुः ॥७१॥ मन्दारः
कोविदारश्च पारिजातश्च नामभिः । स वृत्तो ज्ञायते दिव्यो पश्ये-
त्तत् कुसुमोत्तमम् ॥ ७२ ॥

इति श्रीमहाभारते म्विलेपु हरिवंशे विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे
सप्तपष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥

वैशम्पायन उवाच । ततो जिगमिषुं तत्र नारदं मुनिसत्तमम् ।
मोवाच भगवान् विष्णुरप्रमेयपराक्रमः ॥ १ ॥ महर्षे धर्मतत्त्वज्ञ
स्वर्गं गत्वा त्वयाऽनघ । दृष्ट्वा सदस्यान् देवस्य त्रिपुरध्नस्य
धीमतः ॥ २ ॥ अनाज्ञया मद्रचनाद्विज्ञाप्यः पाकशासनः । संभा-
वयित्वा भ्रातृत्वं पीराणं वंत्सि यन्मुने ॥ ३ ॥ यमसत्ताज्ञीन्मुनि-
श्रेष्ठो भगवान् कश्यपस्तभूम् । पारिजातं पुराऽदित्याः सुखार्थं
धर्मसत्तमः ॥ ४ ॥ स पुण्यमतिर्सौभाग्यं ददाति तरुसत्तमः ।
तव दत्तं पुरादानं व्रतेन तरुमुत्तमम् ॥५॥ देवीभिर्धर्मनित्याभि-

लिये यह महानृत्त कोविदार नामसे प्रसिद्ध है ७१ जिसतरुका यह
उत्तम पुष्प है वह तरु मन्दार कोविदार और पारिजात नामसे
पहिचाना जाता है ॥७२॥ सरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६७ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-उस समय अप्रमेय पराक्रमी
भगवान् विष्णुने जानेकी इच्छा करने वाले मुनियोंमें श्रेष्ठ नारद
जीसे कहा, कि ॥ १ ॥ हे अनघ धर्मतत्त्वज्ञ महर्षे ! आप
स्वर्गमें जाकर बुद्धिमान् शिवजीके सदस्योंको देखनेके अन-
न्तर ॥ २ ॥ जिसप्रकार मेरी आज्ञा मक्कट न हो उस प्रकार
इन्द्रको समझा बुझाकर और हे मुनि ! आप जिस प्राचीन
भ्रातृभावको जानते हैं उसको समझाकर इन्द्रसे कहना ॥ ३ ॥
मुनियोंमें श्रेष्ठ धर्मसत्तम भगवान् कश्यपने जिस पारिजाततरुको
अदितिको सुख देनेके लिये पहले रचा था ॥ ४ ॥ वह तरु
दान करने पर पुण्य और सौभाग्यको देता है, हे देवताओंमें

धर्मार्थममगोक्षग । दत्तं श्रुत्वाऽभिकांक्षन्ति दातुं पत्न्यो मम प्रभो ६
 पुण्यार्थं दानधर्मार्थं मम प्रीत्यर्थमेव च । आनायगद् द्वापरती
 पारिजातं महाद्रुमम् ॥ ७ ॥ दत्तो दाने पुनः स्वर्गं तर्हं त्वं नेतु-
 मर्हसि । स वाच्य एवं भगवान् बलभिद्भगवंस्तवया ॥ ८ ॥ तथा
 तथा प्रयत्नश्च कार्गोऽस्मिन् मुनिमत्तम । यथा तरुवरं दद्यात्
 पारिजातं सुरेश्वरः ॥ ९ ॥ तत्र दूतगुणं तावत् पश्यामस्ते तपो-
 धन । सम्भाव्या सर्वकृत्यानां सम्पद्धि त्वयि मे मता ॥ १० ॥
 एवं नारायणोक्तो नारदो भगवानृषिः । महस्योवाच केशि-
 घ्नमिदं वाक्यं तपोधनः ॥ ११ ॥ वादमेवं प्रवक्ष्यामि यदुमुख्य
 सुरेश्वर । न तु दास्यति देवेन्द्रः पारिजातं कथञ्चन ॥ १२ ॥

श्रेष्ठ तुम्हारा दिया हुआ वह तरु धर्मनित्य देवियोंके व्रत करने
 पर तुम्हारे पास फिर आगया है हे प्रभो ! इस बातको सुनकर
 मेरी पत्नियों भी उस तरुका दान करना चाहती है ॥ ५ ॥ ६ ॥
 इस लिये श्रीकृष्ण उस श्रेष्ठ तरु पारिजातको पुण्य दान धर्म
 और प्रीतिके लिये द्वारकामें बुलाना चाहते हैं ७ मेरे दान करने
 पर आप उस तरुको फिर स्वर्गमें लेजाना हे भगवान् ! आप
 बलदैत्यका नाश करने वाले इन्द्रसे इस प्रकार कहना ॥ ८ ॥
 हे मुनेसत्तमाआप इस प्रकारका प्रयत्न करना जिस प्रकार सुरे-
 श्वर उस वृक्षश्रेष्ठ पारिजातको देदेय ९ हे तपोधन हमआपमें दूत
 के सब गुणोंको देखते हैं मेरा विचार है, कि-आपमें सब काम
 को सिद्ध करने वाली सम्पत्ति विद्यमान है १० नारायणके इस
 प्रकार कहने पर तपोधन ऋषिनारदजीने केशीका नाश करने
 वाले श्रीकृष्णसे इसकर यह बात कही, कि-११ हे यादवोंमें
 मुख्य ! हे सुरेश्वर ! मैं आपकी आज्ञानुसार ही ऐसा कहूँगा
 परन्तु देवेन्द्र पारिजात तरुको कभी नहीं देगा देवता और
 दानवोंने पर्वतोंमें श्रेष्ठ मन्दराचल पर्वतको पहले समुद्रमें डाल

मन्दरं पर्वतश्रेष्ठं दानवीस्त्रिदशैस्तथा । निक्षिप्य तोयधौ पूर्वं
 पारिजातः समाहृतः ॥ १३ ॥ मन्दरात् पर्वतश्रेष्ठान्नयितुं प्रेषितः
 पुरा । पारिजातं हरेणापि लोककर्त्रा जनार्दन ॥ १४ ॥ स्वयं
 निष्ठापितो गत्वा ततः शक्रेण शंकरः । आक्लीडद्रुम उद्याने शच्याः
 स्यादिति याचितः ॥ १५ ॥ तथास्त्विति वरो दत्तो महादेवेन
 चानघ । न च नीतः पारिजातो मन्दरं चित्रकन्दरम् ॥ १६ ॥
 क्रीडावृत्तः स शच्येति व्यपदेशेन मोक्षितः । महेन्द्रेण महाबाहो
 पारिजातस्ततः पुरा ॥ १७ ॥ प्रियार्थमुपयाऽस्त्रान्तीत् पारिजात-
 वनं हरः । गठयूतिशतविस्तीर्णं मन्दरस्यैव कन्दरम् ॥ १८ ॥
 न तत्र सूर्यभाः कृष्ण मविशन्तो नगोत्तमे । न च चन्द्रप्रभाः
 शीता नैव कृष्ण सदागतिः ॥ १९ ॥ शीतोष्णे चन्दतस्तत्र शैल-
 पुत्रा भवन्ति हि । स्वयंप्रभं वनं तद्धि महादेवस्य तेजसा ॥ २० ॥

कर पारिजात तरु पाया था ॥ १२ ॥ १३ ॥ हे जनार्दन ! लोक
 कर्ता महेश्वरने भी पर्वतश्रेष्ठ मन्दराचल परसे पारिजात तरु
 लानेके लिखे भेजा था उस समय इन्द्रने शिवजीके पास अपने
 आप जाकर कहा था, कि—यह हृपारे बागमें इन्द्राणीका क्रीडा-
 तरु अतः है, मैं याचना करता हूँ ॥ १४ ॥ १५ ॥ हे अनघ !
 उस समय महादेवजीने “ तथास्तु ” कह कर वरदान दिया था
 और विचित्र कन्दरा वाले मन्दराचल पर पारिजात नहीं
 लेगए थे ॥ १६ ॥ हे महाबाहो ! इस प्रकार महेन्द्रने यह इन्द्राणीके
 खेलनेका तरु है इस वहानेसे पारिजात तरुको छुडा लिया था १७
 उस समय शिवजीने अपनी प्रिया उमाका प्रिय करनेके लिये
 मन्दरानलकी कन्दरामें दो सौ कोस चौडा पारिजातका वन
 बना दिया था १८ हे कृष्ण ! उस उसमें पर्वतमें सूर्यकी कान्ति
 तथा चन्द्रशकी शीतल कान्ति और सर्वादा चलने वाला वायुभी
 नहीं घुस सकता १९ वहाँ पर शैलपुत्रीकी इच्छानुसार ही गर्मी

वर्जयित्वा महादेवं सगणं यदुनन्दन । मां चान्यस्तद्गुणं दिव्यं न
 प्रयाति कथञ्चन ॥ २१ ॥ स्रवान्त तत्र वाष्प्येय पारिजाताः समं-
 तवः । सर्वरत्नानि मुख्यानि मनसा कान्तितानि वै ॥ २२ ॥
 गणास्तान्युपभुञ्जन्ति पत्राणां महात्मनाम् । आज्ञया देवदेवस्य
 लोकनाथस्य केशव ॥ २३ ॥ पारिजाताद्बहुगुणं फलं तेषां तथा
 वनम् । अभिमानं प्रभाञ्चैव गुणा भूरिगुणास्तथा ॥ २४ ॥ मूर्ति-
 मन्तश्च ते वृक्षाः सोमं देवं वृषभध्वजम् । उपतिष्ठन्ति सततं पत्रैः
 सह केशव ॥ २५ ॥ रौद्रेण तेजसा दुष्टा दुःखैर्हीनाः सुखा-
 न्विताः । तरवो मन्दरे ते हि दयिताः शैलकन्यया ॥ २६ ॥ प्रवि-
 वेशान्नको नाम घोरस्तत्र महाबलः दैतेयो वरदानेन दर्पितः
 पापनिश्चयः ॥ २७ ॥ स हतो देवदेवेन हरेणामित्रघातिना ।
 अवध्यः सर्वभूतानां वृत्रादशगुण बली ॥ २८ ॥ एवं दुःखं न ते

सर्दी होती है महादेवजीके तेजसे वह वन स्वयंप्रभ है २० हे यदु-
 नन्दन ! महादेवजीको उमाको और उनके गणोंको तथा मुझको
 छोड़ कर उस दिव्य वनमें और कोई किसी प्रकार नहीं घुस
 सकता २१ हे वाष्प्येय ! तहाँ पर चारों ओरके पारिजात मन
 में चाहे हुए मुख्य २ रत्नोंके वरसाते रहते हैं २२ हे केशव !
 लोकनाथ देव देव शंकर भी आज्ञासे महात्मा प्रमथ नामक गण उन
 का उपभोग करते हैं २३ उनका वह वन पारिजातसे भी अधिक
 गुण वाला है उनमें बहुतसे गुण हैं और उनकी प्रभा तथा अभि-
 मान भी बहुत है २४ हे केशव ! मूर्तिमान् वृक्ष प्रमथ नामक
 गणोंको साथमें लेकर उगाकी और वृषभध्वजकी उपासना करते
 हैं २५ शिवजीके तेजसे सेविन दुःखोंसे हीन वे मुख्यतय शैल-
 कन्याके मिय वृक्ष मन्दराचल पर हैं २६ उस समय पापी विचार
 करने वाले वरदानसे दर्पित महाबली घोर राक्षस अथकने उस
 वनमें प्रवेश किया २७ उस वृत्रासुरसे दश गुणों बलवान् सब

देव पारिजातं प्रदास्यति । पुष्कराक्ष सहस्राक्षः सत्यमेतद् ब्रवीमि
 ते ॥ २६ ॥ सततं सहितो देव्या शच्या स हि वरदुमः । सर्व
 कामप्रदः कृष्ण तथेन्द्राय महौजसे ॥ ३० ॥ श्रीभगवानुवाच ।
 मुने तद्युज्यते साधु महादेवेन धीमता । यच्छनीकारणं कृत्वा न
 नीतः स तरुः पुरा ॥ ३१ ॥ स ज्येष्ठः सर्वभूतानां लोककृत्
 गभवोऽन्यथः । पारावर्षस्य महशं कृतवानिति मे मतिः ॥ ३२ ॥
 अहं यवीयान् देवस्य सर्वथा वल्लयातिनः । लालनीपथ भगवन्
 जयन्त इव सत्तम ॥ ३३ ॥ सर्वथा भगवांस्तावदुपार्यर्वहुचिस्तरैः ।
 करोतु यत्नमीत्यर्थं शक्तो ह्यसि तपोधन ॥ ३४ ॥ मया मुने प्रति-
 ज्ञातं पुण्यार्थं सत्यभाषया । स्वर्गादिहानयिष्यामि पारिजात-
 मिति प्रभो ॥ ३५ ॥ मया तदमृतं कर्तुं कथं शक्यं तपोधन ।
 भूतोसे अवध्य राक्षसको शत्रुघातक देवदेव महादेवने पार डाला
 हे पुष्कराक्ष ! इस कारण वह पारिजात वृक्ष कठिनतासे ही
 गिला सकता है, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, कि-सहस्राक्ष (इन्द्र)
 आपको पारिजात नहीं देगा ॥ २६ ॥ वह श्रेष्ठ वृक्ष देवी इन्द्राणी
 तथा महापराक्रमी इन्द्रका भी हित करने वाला और उनको सब
 कामनाएँ देने वाला है ॥ ३० ॥ श्रीभगवान् ने कहा, कि-हे मुने !
 महादेवजी इन्द्राणीके कारण कल्पवृक्षको न लोग ए यह उन महात्मा
 ने ठीक ही किया था ॥ ३१ ॥ वह अच्युत लोकके कर्ता सत्र
 भूतोंके उत्पत्तिस्थान और सबसे बड़े हैं अतएव, मेरा विचार है,
 कि-उन्होंने यह लोकपर्यादाके अनुसार ही काम किया था ३२
 हे भगवन् ! परन्तु मैं बलदैत्यका नाश करने वाले इन्द्रका छोटा
 हूँ और हे श्रेष्ठ पुरुष ! उनको मेरी सर्वदा जयन्तकी समान
 लालना करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ हे तपोधन ! पहले आप बहुत
 से उपायोंसे प्रीति बने रहनेका ही काम करना क्यों कि-आप
 समर्थ हैं ॥ ३४ ॥ हे प्रभो ! मैंने सत्यभामासे प्रतिज्ञाकी है, कि-

नानृतं हि वचो विप्र प्रोक्तं पूर्वं मयाऽनघ ॥ ३६ ॥ मयि भद्र-
प्रतिज्ञे वै लोकानां विप्लवो भवेत् । यन्मया हि मुनिश्रेष्ठ लोक-
धर्मा गुणान्विताः । परित्रायाः स्थितौ सर्वं स कथं ह्यनृतं वदेत् ३७
न देवगन्धर्वगणा न राज्ञसा न चामुरा नैव च यज्ञपन्नगाः ।
मम प्रतिज्ञामपहन्तुमुद्यता मुने समर्थाः खलु भद्रमस्तु ते ॥३८॥
स पारिजातं यदि न प्रदास्यति प्रयाच्यमानो भवनाऽमरेरवरः ।
ततः शचीव्यामृदिनानुलेपने गदां विमोक्ष्यामि पुरन्दरोरसि ३४
इति प्रवाच्यां यदि सागपूर्वकं प्रयाच्यमानो न तहं मयच्छति ।
सुनिश्चयं मद्रमनाय सर्वथा त्वयाऽपि कार्यः खलु तत्र निश्चयः ४०
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिबंधे विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे
नारदकृष्णभाषणं नामाष्टपष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥

मैं पुण्यक व्रतके लिये स्वर्गसे पारिजातको यहाँ ले आऊँगा ३५
हे तपोधन ! मैं उस बात को भूँटी कैसे करसकता हूँ क्यों, कि
हे निष्पाप विप्र ! मैंने पहले कभी भूँटी बात नहीं कही है ३६
मेरे भद्रप्रतिज्ञ होने पर अर्थात् भूँटी प्रतिज्ञा करने पर लोकोंमें
विस्रव फैल जायगा अर्थात् सब मनुष्य भूँट बोलने लगेंगे क्यों,
कि-कार्य कारणके अनुसार हुआ करता है हे मुनिश्रेष्ठ ! मेरे
कारण ही संसारके धर्म गुणमग रहो हैं मुझे लोकोंको स्थिति
में रखना चाहिये ऐसा मनुष्य फिर भूँट कैसे बोल सकता है ३७
देवता गंधर्व, राज्ञम, असुर गन्ध और पन्नग भी मेरी प्रतिज्ञाको
नष्ट करनेके लिये उद्यत होकर समर्थ नहीं होसकते हे मुने ! आप
का कल्याण हो ॥ ३८ ॥ आपके गोंगने पर भी यदि देवताओं
का ईश्वर इन्द्र पारिजात नहीं देगा तो मैं इन्द्राणीके कारण अस्त
व्यस्त चन्दन वाले इन्द्रके वृत्तस्थलमें अपनी गदा मारूँगा ३९
यदि वह संगभ्राने पर भी वृत्तको न देवे तो आप इस प्रकार
कहना और मेरा तहाँ आनेका पक्का विचार प्रकट करदेना ४०

वैशम्पायन उवाच । नारदोऽथ मुनिर्गत्वा गहेन्द्रसदनं प्रति ।
 तां रात्रिगवसत्तत्र ददृशे च महोत्सवम् ॥ १ ॥ तत्रादित्या महा-
 त्मानो वसवश्च सुरोत्तमाः । राजर्षयश्च विद्वांसः स्वर्गताः कर्मणिः
 शुभैः ॥ २ ॥ नागा यक्षाश्च सिद्धाश्च चारणाश्च तपोधनाः ।
 ब्रह्मर्षयश्च शतशो देवर्षिंमनवस्तथा ॥ ३ ॥ सुपर्णाश्च महात्मानो
 मरुतश्च महाबलाः । दिवोकसां निकायाश्च शतशोऽन्ये समागताः ४
 'उपयु'परि सर्वेषां सोमदेवो महेश्वरः । तस्थावमितविक्रान्तः
 स्वैर्गणैः परिवारितः ॥ ५ ॥ देवर्षिभिर्मुनिश्रेष्ठैः समृतः सर्व-
 भावनः । कल्पान्तरसहस्रेषु क्षयो येषां न विद्यते ॥ ६ ॥ यानर्च-
 यन्ति सततं देवा देवेश्वरोपमाः । आत्मज्ञानरत्नेष्वपान्था ये च
 धर्मपथि स्थिताः ॥ ७ ॥ रुद्राश्च काश्यपा देवमध्युपासन्त भारत ।
 स्कन्दश्च भगवानग्निर्गंगा च सरिता वरा ॥ ८ ॥ अर्चिष्णास्तु-

वैशम्पायनजीने कहा, कि-तदनन्तर नारदजी इन्द्रके भवन
 की ओर चले गए और तर्षों रात भर रह कर उन्होंने महोत्सव
 को देखा ॥ १ ॥ तर्षों पर महात्मा आदित्य देवताओंमें श्रेष्ठ वसु
 अपने श्रेष्ठ कर्णोंसे स्वर्गमें आए हुए विद्वान् राजर्षि नाम यज्ञ
 सिद्ध चारण तपोधन ब्रह्मर्षि सैकड़ों देवर्षि मनु महात्मा सुपर्ण
 महाबली मरुत और भी सैकड़ों स्वर्गमें रहने वाले गणियोंके
 टोले आए थे ॥ २ ४ ॥ उन सबके ऊपर गहेश्वर उमादेवीके
 साथ वर्तमान थे उन अमित पराक्रमी सब लोकोंके पूजनीय महा-
 देवजीके साथ गण श्रेष्ठ २ मुनि और देवर्षि भी थे उनका सहस्रों
 कल्पोंमें भी नाश नहीं होता है ॥ ५-६ ॥ उनकी आत्मज्ञानसे
 गर्वरहित धर्ममार्गमें स्थित देवताओंकी समान उपमा वाले देवता
 सर्वादा पूजा करते हैं ॥ ७ ॥ रुद्र काश्यप तथा हे भरतवंशी
 राजन् ! भगवान् स्कन्द, अग्नि, नदियोंमें श्रेष्ठ गंगाजी, अर्चि-
 ष्णान्, तुम्बुरु वक्ताओंमें श्रेष्ठ भारि (नामक गंगर्व) ये महादेवजी

म्बुरुश्चैव भारिश्च वदताम्बरः । नेतारो देवदेवानामेते हि तप-
सान्विताः ॥ ९ ॥ एताननुविधीयन्ने सर्वदेवगणा नृप । धर्म-
नित्यास्तपोनित्याः सतां मार्गमुपाश्रिताः ॥ १० ॥ ये त्विमे मानुषा
देवा अर्चयन्ति शुभार्थिनः । तानर्चयन्ति ह्यमरास्तथा राजञ्छु-
भार्थिनः ॥ ११ ॥ पितृकृत्येषु देवानां संन्यासं ये त्वनुष्ठिताः ।
स्वाध्यायवन्तः कौरव्य सदा नियमचारिणः ॥ १२ ॥ गन्धर्वा-
धिपतिः श्रीमान्स्तत्र चित्ररथो नृप । सपुत्रो वादयागास देव-
नाञ्चानि हृष्टवत् ॥ १३ ॥ ऊर्णाद्युश्चित्रसेनश्च हाहाहूहस्तथैव च ।
हुम्बरस्तुम्बुरुश्चैव जगुरन्ये च पङ्गुणान् ॥ १४ ॥ उर्वशी
विप्रचित्तिश्च हेमारम्भा च भारत । हेमदन्ता घृताची च सह-
जन्या तथैव च ॥ १५ ॥ जुजोष भगवान् देवस्तदुपस्थानगात्म-

की उपासना करते हैं हे भारत ! ये तपोयुक्त माणी देवदेवोंके
भी नेता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ हे राजन् ! सर्वदा धर्म कर्म और तप
करने वाले सज्जनोंके मार्गमें स्थित सब देवताओंके गण इनका
ही अनुसरण करते हैं ॥ १० ॥ जो शुभाभिलाषी पुरुष इन
देवताओंकी पूजा करते हैं हे राजन् ! उनकी देवता तथा शुभा-
भिलाषी दूसरे पुरुष उपासना करते हैं ॥ ११ ॥ हे कौरव्य !
जो पितृकृत्यका देवताओंका संन्यासका स्वाध्यायका और
सर्वदा निषर्गोंका अनुष्ठान करते हैं (वेभी इनकीपूजा करते हैं) १२
हे राजन् ! उस समय गन्धर्वोंके राजा श्रीमान् चित्ररथने अपने
पुत्रको साथमें लेकर मसन्नतासे देवताओंके वाजोंको बजाया १३
ऊर्णाद्यु चित्रसेन हाहा तथा हूह हुम्बर तथा तुम्बुरु यह
तथा और भी गन्धर्व (चक्रिप, स्निग्ध, मधुर, लास्य, विभक्त
और अवचद् नामक) ङः गुणोंको गाने लगे ॥ १४ ॥ तथा उर्वशी
विप्रचित्ती हेमरम्भा हेमदन्ता घृताची और सहजन्याने भी हे
भारत ! (इसीप्रकार गाना गाया) ॥ १५ ॥ आत्मवान् भग-

वान् । वृत्तेन तुष्टः शक्रस्य जगाम जगतो गतिः ॥ १६ ॥ गते
 भूतपती सर्वे नृपा जग्मुर्गन्धर्गम् । महेंद्रेणार्चिता देवाः स्वानेव
 निलगान् गताः ॥ १७ ॥ ततः सर्वेषु यानेषु सुखासीनं पुरन्दरम् ।
 सदस्यैः स्त्रीः सहासीनं नारदोऽभिययौ मुनिः ॥ १८ ॥ तमिन्द्रः
 पूजयागास समुत्थाय तपोधनम् । दिदेश कुशगर्भं च पीठगात्मा-
 सनोपमम् ॥ १९ ॥ नारदोऽथ महातेजा महेंद्रमिदमब्रवीत् ।
 दूतोऽहममरश्रेष्ठ विष्णोरतुलतेजसः ॥ २० ॥ किञ्चित् कार्यं पुर-
 स्कृत्य प्रेषितोऽस्मि महात्मना । आनर्तादातिहरणं तस्यैवानघ-
 तेजसः ॥ २१ ॥ प्रीतिवाक्यानि हृद्यानि प्रयुज्य मुनये तदा ।
 ततः प्रहृष्टो भगवानब्रवीत् पाकशासनः ॥ २२ ॥ किमाह सुरप-
 श्रेष्ठः शीघ्रगाचच्च मे मुने । निरस्य खलु कृष्णेन संस्मृतोऽस्मि

वान् महादेवजीने उस नृत्यादिरूप परिचर्याको प्रीतिपूर्वक ग्रहण
 किया तदनन्तर जगत्की गति इन्द्रके सत्कारसे तुष्ट हुए महा-
 देवजी तहाँ से चले गए ॥ १६ ॥ भूतपति महादेवजीके चलेजाने
 पर राजे अपने २ स्थानोंको चले गए और इन्द्रके सत्कार करने
 पर देवता भी अपने २ स्थानोंको चले गए ॥ १७ ॥ तदनन्तर
 जब सबके चलेजाने पर इन्द्र अपने सदस्योंसे धिरेकर बैठा तब
 नारदमुनि उसके पास गए ॥ १८ ॥ उस समय इन्द्रने उठकर
 तपोनिधि नारदका सत्कार किया और भीतर कुशा भरा हुआ
 अपने आसनकी सगान एक आसन उनको दिया ॥ १९ ॥ उस
 समय महातेजस्वी नारदजीने इन्द्रसे इसप्रकार कहा, कि-हे
 अमरश्रेष्ठ ! मैं अतुल तेजस्वी विष्णुका दूत हूँ ॥ २० ॥ उन
 निष्पाप तेजवाले महात्माकी वगधाको दूर करनेवाले एक कार्यके
 कारण उन महात्माने मुझे द्वारकापुगीने भेजा है ॥ २१ ॥ उस
 समय पाकशासन इन्द्रने मुनिसे मगोहर प्रीतिमय वाक्य कहकर
 गसन्न होते हुए यह बात कही, कि- ॥ २२ ॥ हे मुने ! पुरुष

महात्मना ॥ २३ ॥ नारद उवाच । महेन्द्रेन्द्रानुजं द्रष्टुं गतोऽहं
 भ्रातरं तव । कथंचिद् द्वारकां तत्र कश्यपानां यशस्करम् २४
 तन्तु रैवतकेऽद्राक्षं तदासीनगरिदमम् । रुक्मिण्या सहितं वीरं
 स्तुवन्तं वृषभध्वजम् ॥ २५ ॥ पारिजाततरोः पुष्पं तस्य दत्तं
 मयाऽनघ । विष्णोपनार्थं देवेश पत्नीनामुरुतेजसः ॥ २६ ॥ तद्
 दृष्ट्वा तस्य पत्न्यस्तु विस्मयं परमं ययुः । बहुकाममदं पुष्पं वृत्त-
 राजसमुद्भवम् ॥ २७ ॥ गुणास्त्वासां मया ख्यातास्तस्य पुष्पस्य
 मानद । सृष्टश्च पारिजातस्य कश्यपेन महात्मना ॥ २८ ॥
 अदित्या कश्यपो दत्तः पुण्यार्थं च यथा मम । पुष्पदाम्ना चेष्ट-
 यित्वा कण्ठे पुण्यार्थमात्मवान् ॥ २९ ॥ त्वं च दत्तो यथा शच्या

श्रेष्ठ श्रीकृष्णने क्या कहा है उसे शीघ्र बनलाइये महात्मा
 श्रीकृष्णने मुझे बहुत दिनके पीछे याद किया है ॥ २३ ॥ नारद-
 जीने कहा, कि-हे महेन्द्र ! मैं कश्यपोंके यशको बढ़ाने वाले
 इन्द्रके अनुज तुम्हारे भाईको देखनेके लिये किसी कारणवश
 द्वारकाको गया था ॥ २४ ॥ तहाँ मैंने रैवतक पर्वत पर रुक्मि-
 णीके साथ जीठे हुए श्रीकृष्णको देखा वह वीर वृषभध्वज
 गंकरकी उपासना कर रहे थे ॥ २५ ॥ हे अनघदेवेश ! उन
 अति तेजस्वी श्रीकृष्णकी पत्नियोंको विस्मित करनेके लिये मैंने
 उनको पारिजात वृत्तका पुष्प दिया था ॥ २६ ॥ वृत्तराजसे
 उत्पन्न हुए अनेक कामनाओंको देनेवाले उस पुष्पको देखकर
 उनकी पत्नियों बड़ी विस्मित हुई ॥ २७ ॥ हे मानद ! मैंने उनसे
 इस पुष्पके गुण वर्णन किये और महात्मा कश्यपके द्वारा इस
 पारिजातकी सृष्टि भी कही ॥ २८ ॥ जिस प्रकार अदितिने पुण्यक
 व्रतमें आत्मवान् कश्यपको गलेमें पुष्पोंका हार डालकर पुण्यक
 व्रतमें मुझको दे दिया था २९ हे सुरेश्वर जिस प्रकार इन्द्राणी
 ने तुमको दिया था और जिस प्रकार दूसरे देवताओंको दिया

देवारचान्ये सुरेश्वर । निष्कृत्यश्च यथा दत्तः कश्यपाद्यैर्महर्षिभिः
तच्छ्रुत्वा तस्य पत्न्येका सत्यभामेति विश्रुता । पुण्यकार्यं मन-
श्चक्रे दयिता ते यवीयसः ॥३१॥ तथा चाभ्यर्थितो भर्ता देव-
देव्या गणेश्वरः । मतिज्ञो स धर्मार्थं यवीयास्तव मानद ॥३२॥
ततो मामुक्तवान् वीरो विष्णुर्वलवर्ता वरः । यथावत् सुगृह्येश
व्रुवतः शृणु भावतः ॥ ३३ ॥ लालनीयो यवीयास्तु प्रणिपत्या-
ञ्च्युतोऽब्रवीत् । आनयेयं सुरश्रेष्ठ पारिजातं वरं द्रुपम् ॥ ३४ ॥
मनोरथोऽस्तु सफलो बध्वास्तेऽसुरसूदन । धर्मकृत्ये विशेषेण
बध्वास्ते सुरसत्तम । ३५ ॥ अयं दर्शितकल्पाणो लोको लोक-
गणेश्वर । पश्यन्त्वमरकल्पाणं मत्प्रभावाच्च मानवाः ॥३६॥
या और कश्यप आदि महर्षियोंने जिस मकार मूत्र्य दिया था
(यह सब बात मैंने उनसे कही) ॥ ३० ॥ उसको सुनकर
तुम्हारे छोटे भाई श्रीकृष्णकी सत्यभामा नामसे मसिद्ध एक
प्यारी स्त्रीने पुण्यक व्रत करनेका मनमें विचार किया ॥३१॥
हे मानद ! उस देवदेवीने गणोंके ईश्वर अपने स्वामीसे (इस
वृत्तकी) याचनाकी तब धर्म कार्य करनेके लिये तुम्हारे छोटे
भाईने इस बातकी मतिज्ञा करली ॥३२॥ उस समय बलवानोंमें
श्रेष्ठ वीर विष्णुने मुझसे जो बात कही थी हे ईश ! हे सुरमुख्य !
उसको तुम ध्यान देकर मेरे कहनेसे सुनो ॥ ३३ ॥ अच्युतने
प्रणाम करके कहा है, कि हे सुरश्रेष्ठ ! मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ
अत एव तुम्हें मुझे लाड़ लड़ाना चाहिये और वृत्तोंमें श्रेष्ठ
पारिजात वृत्तको भेजदेना चाहिये ॥ ३४ ॥ हे असुरसूदन ! हे
सुरसत्तम ! तुम्हारे छोटे भाईकी बधूका मनोरथ सफल होना
चाहिये और विशेषकर धर्मकृत्यमें तो उसका मनोरथ सफल ही
होना चाहिये ॥ ३५ ॥ हे लोकगणेश्वर ! यह तरु रुच्याण देने
वाला है इसबातको लोकोंने देखलिया अत मेरे प्रभावसे देव

वैशम्पायन उवाच । वासुदेववचः श्रुत्वा गहेन्द्रः कुलनन्दन ।
 नारद वेदतां श्रेष्ठमदं वाक्यमथाब्रवीत् ॥ ३७ ॥ भजासनं द्विज-
 श्रेष्ठ युक्तमुक्तं त्वया द्विज । सन्देशं प्रतिदास्यामि विष्णोरतुल-
 तेजसः ॥ ३८ ॥ आसीने नारदे शको लब्धवानुज्ञोऽथ नार-
 दात् । स्वमासनं ततो भेजे तस्मैव सदृशं प्रथो ॥ ३९ ॥ उप-
 विष्टः सुरपतिरथोवाच तपोधनम् । निरीक्ष्य स्वयं वीर्यं हर्षदं
 वृत्रनाशनः ॥ ४० ॥ शक्र उवाच । महर्षे कुशलं पृष्ट्वा वक्तव्यस्ते
 जनार्दनः । वचनान्मम धर्मज्ञ सर्वभूतसुखावहः ॥ ४१ ॥ मदनन्तर-
 गीशास्त्वं जगतो नात्र संशयः । त्वदीयः पारिजातरश्च रत्नान्प-
 न्यानि चाच्युनः ४२ त्वं तु भारगवतरणं कर्तुं देवमहीं गतः । मानुष्यं

ताओंका कल्याण करनेवाले इस वृत्तको मनुष्योंकी भी देखने
 दीजिये ॥ ३६ ॥ वैशम्पायनजीने कडा कि-कुलनन्दन इन्द्रने
 वासुदेवके वचनको सुनकर वक्ताओंमें श्रेष्ठ नारदजीसे यह वचन
 कहा कि-॥ ३७ ॥ हे श्रेष्ठ द्विज ! आप आसन पर बैठिये हे
 ब्राह्मण ! आपने ठीक बात कही अब मैं अतुल तेजस्वी विष्णु
 को सन्देशा दूंगा ॥ ३८ ॥ हे प्रभो ! नारदजीके बैठ जानेपर
 नारदजीकी आज्ञानुसार इन्द्रभी उनके ही समान अपने आसन
 पर बैठ गया ॥ ३९ ॥ तदनन्तर बैठे हुए वृत्रासुरका नाश
 करनेवाले देवराज इन्द्रने हर्षको बढ़ानेवाले अपने वीर्य और
 बलको देखकर तपोनिधि नारदजीसे कहा ॥ ४० ॥ इन्द्रने
 कडा, कि-हे धर्मज्ञ महर्षे ! सब प्राणियोंके सुखको बढ़ाने
 वाले जनार्दनसे कुशल प्रश्न पूछ कर तुम मेरे कहनेसे उनसे
 कहना, कि-॥ ४१ ॥ मेरे वाद आप ही इस जगत्के स्वामी हैं
 इसमें कोई सन्देह नहीं है हे अच्युन ! यह पारिजात तथा दूसरे
 रत्न भी आपके ही हैं ॥ ४२ ॥ हे देव ! आप पृथ्वीका भार
 उतारनेके लिये पृथिवी पर गए हैं और अपना कार्य सिद्ध करने

सर्ववृत्तानां स्थितः कार्यस्य सिद्धये ॥ ४३ ॥ त्वयि तीर्णप्रतिज्ञे
 हि पुनः प्राप्ते त्रिविष्टपम् । पूरयिष्यमि बध्वास्ने इष्टान् कामा-
 नधोक्ष्ण ॥ ४४ ॥ स्वर्गीयानि च रत्नानि न नेतव्यानि केशव ।
 स्वल्पार्थं गान्धुपं लोकमिति पूर्वकृता स्थिताः ॥ ४५ ॥ उत्क्रम्य
 हि स्थितिं दैवीं प्रवर्तामि महाबल । यग्रहं किं गवक्ष्यन्ति मजा-
 पतिगणाः प्रभो ॥ ४६ ॥ ब्रह्मणा सह पुत्रेण सपौत्रेण महा-
 त्मना । नियमाः सर्वकृत्यानां स्थापिता जगतो ध्रुवाः ॥ ४७ ॥
 मजापतिकृतं मार्गमपास्य व्रजतो मम । श्रुत्वा मजापतिर्धामा-
 ञ्छ्वापमप्युत्सृजेत् मयुः ॥ ४८ ॥ अस्माभिर्मिथ्यमानं हि मर्यादा-
 सेतुबन्धनम् । भेत्स्पन्त्यशंकित्वा दैत्या दैत्यपत्नास्तथापरे ॥ ४९ ॥
 स्त्रीनिमित्तमितो नीते पारिजाते द्रुमेश्वरे । स्वर्गोकसौ भविष्यन्ति
 विमनस्काश्च मानद ॥ ५० ॥ उपभोगा मनुष्याणां विहिता ये

के लिये सब कामोंमें मनुष्योंकेसा ही वर्तान कर रहे हैं ॥ ४३ ॥
 जब आप अपनी प्रतिज्ञामें उचीर्ण हो कर स्वर्गमें फिर आजायेंगे
 तब हे अधोक्ष्ण ! मैं तुम्हारी स्त्रीके चाहे हुए कामोंको पूर्ण
 करूँगा ॥ ४४ ॥ हे केशव ! स्वर्गीय रत्नोंको जरा २ से स्वार्थ
 के लिये मनुष्यलोकमें नहीं लेजाना चाहिये ऐसी पहले कालमें
 मर्यादा बाँधी गई है ॥ ४५ ॥ हे नारद ! यदि मैं इस दैवी-
 नियमका उल्लंघन करने लगूँगा तो हे प्रभो ! मजापतियोंके
 गण मुझसे क्या कहेंगे ४६ महात्मा ब्रह्माजीने और उनके पुत्र
 और पौत्रोंने जगत्के सब कामोंके लिये निश्चित नियम स्थापित
 कर दिये हैं ४७ यदि मैं मजापतिके रचे हुए मार्गका उल्लंघन करके
 चलूँगा तो इस बातको सुनकर मयु मजापति शायद मुझे शाप दे दें
 यदि हम मर्यादाके पुलको तोड़ने लगेंगे तो दैत्य और उन
 का पत्न लेने वाले भी निःशंक होकर मर्यादाको तोड़ने लगेंगे ४९
 और हे मानद ! स्त्रीके कारण वृत्तराज पारिजातको लेजाने

स्वयंभुवा । तैस्तु कृष्यतु मे भ्राता संपश्यन् कालपर्ययन् ॥५१॥
 इहापि तात त्रिदिवे मम यः स्यात् परिग्रहः । त्रिदिवस्थोऽपि तं
 कृष्णः सर्वं भोक्तुमिहार्हति ॥ ५२ ॥ हृष्टो ह्यामिपभोज्यानाम-
 गिमानाञ्जनार्दनः । ततो धर्मं समुत्सृज्य पापमेवानुवर्तते ॥५३॥
 स्त्रीवश्यता ख्याप्यमाना कृष्णस्य हि महात्मनः । जगत्पयशसा
 योगं जनयेदिति मे गतिः ॥ ५४ ॥ मानुष्यं मानुषे प्राप्नो यदेत-
 न्मधुसूदनः । कुर्यान्निर्वन्धनीयं यद् भ्रात्रा ज्येष्ठेन नारद ॥५५॥
 स्वर्गपरत्नविलोपेन धर्षणा स्यान्गमानघ । ज्ञातितो धर्षणा चैव
 विशेषेणैव गर्हिता ॥५६॥ धर्ममर्थं च कामं च क्रमेण मधुसूदनः ।
 सेवत्वेप सतां धर्मान् स्थापितान् पद्मयोनिना ॥ ५७ ॥ महीतलं

पर स्वर्गवासी भी अनगने होजायगे ॥ ५० ॥ ब्रह्माजीने मनुष्यों
 के लिये जो उपभोग रचे हैं कालके लौट फेरको देख कर मेरे
 भाई उनसे ही सन्तुष्ट रहें ५१ हे तात ! स्वर्गमें रहने पर ही
 श्रीकृष्ण उस सबको भोग सकते हैं ५२ जनार्दन मांसके भोजनों
 से हृष्ट होगए हैं अत एव वह धर्मको छोड़ कर अधर्मका पत्त
 लेने लगे है (आपस्तम्बने लिखा है, कि—“हृष्टो दृष्यति दृष्टो
 धर्ममतिक्रामति—अर्थात् हर्षमें भरा हुआ मनुष्य उद्धत होजाता है
 और उद्धत मनुष्य धर्मको लांघने लगता है”) ५३ मेरा विचार
 है, कि महात्मा श्रीकृष्ण स्त्रीके वशमें रहते हैं जब यह बात जगत्में
 प्रसिद्ध होजायगी तो उनका अपयश होने लगेगा ५४ हे नारद !
 यह मधुसूदन यदि मनुष्यलोक में मनुष्य बनकर यदि मुझ वड़े
 भाईको मजबूर करेंगे ५५ तो हे निष्ठाप ! स्वर्गके रत्नका लोप
 करनेसे मेरा अपमान होगा और जाति वालोंसे अपमान पाना
 अतिनिन्दित है ५६ मधुसूदनको धर्म अर्थ और कामका क्रमपूर्णाक
 सेवन करना चाहिये और ब्रह्माजीके स्थापित किये हुए
 सज्जनोंके धर्मका पालन करना चाहिये ॥ ५७ ॥ यदि मैं और

पारिजातगर्पयिष्याम्यहं यदि । पौलोमीमादितः कृत्वा को जु
 मां बहु मंस्यते ॥ ५८ ॥ पारिजातं महीपृष्ठे दृष्ट्वा पृष्ट्वा च मानुषाः ।
 स्वर्गार्थं नोद्यमिष्यन्ति दृष्ट्वा स्वर्गफलं क्षिती ॥ ५९ ॥ पारिजात-
 गुणान् मर्त्या जुषन्ति यदि नारद । देवतानां मनुष्याणां न
 विशेषो भविष्यति ॥ ६० ॥ तत्र यत् क्रियते कर्म इह तद्भुज्यते
 नरैः । स्वर्गार्थं न यतिष्यन्ति पारिजातगुणान्विताः ॥ ६१ ॥
 सर्वरत्नवरः स्वर्गे पारिजातस्तपोधन । तुभ्यं देवसमैर्मर्त्यैः सर्व-
 दैव जगद्भवेत् ॥ ६२ ॥ यज्ञैर्मर्त्या न यद्गन्ति लब्धस्वर्गफला
 भुवि । न पूर्तानि प्रदास्यन्ति तुभ्यत्वमगर्गताः ॥ ६३ ॥ यज्ञैर्जप्या-
 न्हिकैश्चैव नित्यपाप्यायन्ति नः । मानुषाः स्वर्गमिच्छन्तः श्रद्ध-
 धानास्तपोधनाः ॥ ६४ ॥ तत्सर्वं न करिष्यन्ति पारिजातगुणा-
 इन्द्राणी पृथ्वीमें पारिजातको भेजदेंगे तब मेरा अधिक मान फौन
 करेगा ॥ ५८ ॥ मनुष्य पृथ्वीतलपर पारिजात तहको देखकर
 और छूकर पृथ्वीमें ही स्वर्गके फलको देखलेंगे ॥ ५९ ॥ हे
 नारद ! यदि मनुष्य पारिजातके गुणोंका सेवन करने लगेंगे तो
 फिर देवताओंमें और मनुष्योंमें भेदही क्या रहेगा ॥ ६० ॥
 मनुष्यलोकमें जो कर्म किया जाता है मनुष्य उसको इस लोकमें
 भोगा करते हैं वे पारिजातके गुणसे युक्त होकर स्वर्गके लिये
 उद्योग नहीं करेंगे ६१ हे तपोधन ! पारिजात स्वर्गमें सब रत्नों
 में श्रेष्ठ माना जाता है (इसके चले जाने पर) सब जगत् देव-
 ताओंकी समान मनुष्योंसे क्यास रहेगा ६२ जब मनुष्योंको
 स्वर्गका फल भूमिमें मिल जावेगा तब मनुष्य यज्ञोंसे पूजन नहीं
 करेंगे और देवताओंकी समान होकर पूर्त भी नहीं करेंगे ६३
 हे तपोधन ! मनुष्य स्वर्गको चाहते हुए सर्वदा श्रद्धापूर्वक यज्ञोंसे
 जपोंसे हमें तृप्त करते रहते हैं ६४ पारिजातके गुणसे युक्त होने
 पर वे इन सब बातोंको करना छोड़ देंगे, तब कल्पतहसे रहित

न्विताः । निस्तेजसो भविष्याम ते गतास्तद्विहीनताम् ॥६५॥ इतः
सुवृष्ट्या सस्यैस्ते जीवन्ति पुरुषा भुवि । आप्यायन्तस्तेऽप्यस्मान्
दानैर्यज्ञैस्तथैव च ॥ ६६ ॥ न बुभुक्षा पिपासा वा बाधते यदि
मानुषान् । रोगो जरा वा मृत्युर्वा धर्मज्ञ रतिरेव च ॥ ६७ ॥
दौर्गन्ध्यं वा सुघोरा वा ईतयः कर्मताम्भावाः । किमुद्योगं करि-
ष्यन्ति पारिजातगुणान्विनाः ॥ ६८ ॥ सर्वथा नयनं तत्र पारि-
जातस्प न क्षमम् । इति वाच्यस्त्वया विप्र विष्णुरक्लिष्टकर्म-
कृत् ॥६९॥ यथा यथा च मे भ्राता तुष्यत्येतद्विचारयन् । तथा
तथा त्वया कार्यं कार्यं मत्प्रीतिमिच्छता ॥ ७० ॥ हाराश्च मण-
यश्चैव चन्दनान्यगुरुणि च । वस्त्राणि च विचित्राणि वध्वास्त्वं
द्वारकां नय ॥ ७१ ॥ योग्यानि यानि मर्त्यानां गानदिच्छति
केशवः । न स्वर्गपरिमोषं तु कर्तुं मर्हति सांप्रतम् ॥७२॥ ददामि

होनेके कारण हम निस्तेज होजावेंगे ६५ अब तो मनुष्य पृथ्वी
में दान तथा गज्ञसे हमको तुष्ट करते हुए (हमारे) सुवृष्टि करने
पर धान्योंसे जीवित रहते हैं ६६ पारिजातके गुणसे मनुष्योंको
भूख प्यास रोग जरा मृत्यु वा रति दुर्गन्धि तथा कर्मवश हुई
भयंकर ईतियें जब पीड़ा नहीं देंगी तो वे उद्योग क्यों करेंगे ६७-६८
सरलतासे कर्म करनेवाले विष्णुसे आप कहना, कि-तहाँ पर
पारिजातका लेजाना किसी प्रकार भी उचित नहीं है ६९ जिस २
प्रकारसे मेरे भाई सन्तुष्ट होसकें उस २ प्रकारसे विचार कर
आप उनसे बातचीत करें और इन बातोंको मेरी प्रीतिसम्पादन
करनेके लिये करें ७० आप (श्रीकृष्णकी) वधूके लिये हार, मणि,
चन्दन अगर और विचित्र वस्त्र द्वारकाको लेजाइये ७१ मनुष्योंके
योग्य जिन वस्तुओंकी केशवको इच्छा हो (उनको) लेजाइये
परन्तु इस समय श्रीकृष्णको स्वर्गकी चोरी करना उचित नहीं
है ॥७२॥ मैं यथेप्सित रत्न और बहुतसे विचित्र आभूषण भी

रत्नानि यथेक्षितान्ग्रहं बहूनि चित्राणि विभूषणानि । न पारि-
जातं च कण्ठवनं द्रुमं मुने प्रदास्यामि दिवोकसां प्रियम् ॥७३॥
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिबंधे विष्णुपर्वणि पारिजातहरणो
इन्द्रवाक्यं नामैकोनसप्ततिगोऽध्यायः ॥ ६६ ॥

शैशम्पायन उवाच । देवराजवचः श्रुत्वा नारदः कुरुनन्दन ।
प्रोवाच वाक्यं वाक्यज्ञो धर्मात्मा धर्मवित्तमः ॥ १ ॥ अचश्यमेव
वक्तव्यं हितं बलनिषूदन । गया तव महाबाहो बहु मानोऽस्ति
मे त्वयि ॥ २ ॥ उक्तो मया वासुदेवो जानता भवतो मतम् ।
न दत्तः पारिजातोऽयं हरस्यापि त्वया पुरा ॥ ३ ॥ हेतवश्च मया
तस्य दर्शितास्ते समासतः । न चावगतवान् देवः सत्यमेतद्भवीषि
ते ॥ ४ ॥ उपेन्द्रोहं महेन्द्रेण लालनीयः सदेति माम् । उवाच
पुण्डरीकाक्षो दत्तमुत्तरमेव च ॥ ५ ॥ पुनः पुनर्मया वास्य हेतवो

दे सकता हूँ, परन्तु हे मुने ! मैं स्वर्गवासियोंके प्यारे पारिजात
के तरुको कभी नहीं दूँगा ७३ उनहजारवाँ अध्याय समाप्त ६६

शैशम्पायनजीने कहा, कि-हे कुरुनन्दन ! धर्म जानने वालोंमें
श्रेष्ठ धर्मात्मा वाक्यवेत्ता नारदजीने देवराजके वचनको सुनकर
कहा, कि-१ हे बल दैत्यका नाश करने वाले ! मुझे आपके
हितकी बात अवश्य कहनी चाहिये, क्योंकि हे महाभुज ! मैं
आपका परम मान करता हूँ २ आपने पहिले महादेवजीको भी
पारिजाततरु नहीं दिया था, इससे मैंने आपके अभिप्रायको
जानकर वासुदेवसे (सब कुछ) कह दिया था ३ आपके वताये
हुए कारण भी मैंने उन्हें संचोपमें सुनाये थे, परन्तु मैं सत्य-
कहता हूँ, कि-उन देवने इन बातोंको कुछ नहीं समझा ४
उस समय मुझे पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णने उत्तर दिया, कि-मैं
उपेन्द्र हूँ, अतः इन्द्रको सर्वदा मेरा लालन करना चाहिये ५।
हे देव ! मैंने उनको बारबार कारण दिखाये परन्तु हे वृत्र-

दैव दर्शिताः । ततो न बुद्धिर्व्यावृत्ता वृत्रनाशन तस्य वै ॥ ६ ॥
 अपि चाप्युक्तवान् देवो वाक्यान्ते मधुसूदनः । मत्याह पुरुषश्रेष्ठः
 सरोपगिव वासव ॥७॥ न देवगन्धर्वगणा न राज्ञसा न चासुरा
 नैव च पन्नगोत्तमाः । मम प्रतिज्ञामुपहन्तुमुद्यता मुने समर्थाः
 खलु भद्रमस्तु ते ॥ ८ ॥ स पारिजातं यदि न प्रदास्यति प्रदा-
 द्यमानो भवता पुरन्दरः । ततः शचीव्यामृदिनानुलोपने गदां
 विमोक्ष्यामि पुरन्दरोरसि ॥ ९ ॥ उपेन्द्रस्य महेन्द्राय भ्रातुस्ते
 निश्चयः परः । यदत्र मन्यसे न्यायं संप्रधार्य कुरुष्व तत् ॥१०॥
 तत्त्वं हितं च देवेश श्रूयतां वदतो मम । नयनं पारिजातस्य
 द्वारकां गग रोचते ॥ ११ ॥ नारदैनैवमुक्तस्तु सुव्यक्तं बलदेह-
 भित् । रोपाविष्टः सहस्रात्तोऽवचीदेतन्नराधिप ॥ १२ ॥ अना-
 गसि गयि ज्येष्ठे सोदरे यदि केशवः । एषां गवृत्तः किं शक्यं

नाशन ! उनका निश्चय न बदला ॥ ६ ॥ हे वासव ! पुरुषश्रेष्ठ
 मधुसूदन देवने बातचीत करनेके अनन्तर क्रोधपूर्वक कहा था,
 कि-हे मुनेदेवता गन्धर्वा राज्ञस असुर और श्रेष्ठ सर्प भी मेरी
 प्रतिज्ञाको नहीं तोड़ सकते ॥ ८ ॥ यदि आपके माँगने पर भी
 इन्द्र आपको पारिजात न देय तो मैं इन्द्राणीके कारण अस्त-
 व्यस्त चन्दन वाले इन्द्रके वक्षःस्थलमें गदाका प्रहार करूँगा, हे
 हे महेन्द्र ! आपके उपेन्द्र भाईका यह पत्रका निश्चय है, अब
 आप जिस बातको उचित समझें उसे करें ॥ १० ॥ दे देवेश !
 आप मेरी हितकारिणी तत्त्व बातको सुनिये, कि-मुझे पारि-
 जातका द्वारकामें ले जाना ही अच्छा प्रतीत होता है ॥ ११ ॥
 हे नराधिप ! नारदजीके इस प्रकार कहने पर बल दैत्यके देहको
 विदीर्ण करने वाले सहस्रात्तने क्रोधमें भर कर यह कहा, कि-१२
 हे तपोधन ! केशव मुझ निरपराध ज्येष्ठ भ्रातासे भी ऐसा
 व्यवहार करनेको उद्यत होगया, अतः अब मेरा क्या कर्तव्य

कर्तुं पद्य तपोधन ॥ १३ ॥ बहूनि प्रतिलोमानि पुरा स कृतवान्
 मयि । कृष्णो नारद सोढानि भ्रातेति स्म मया सदा ॥ १४ ॥
 खाण्डवे चार्जुनरथं पुरा वाहयता सता । मदीया वारिता मेघाः
 शमयन्तोऽग्निमुद्धतम् ॥ १५ ॥ गोवर्धनं धारयता विप्रियं च कृतं
 मम । तथा वृत्रवधे प्राप्ते साहाय्यार्थं धृतो मया ॥ १६ ॥ समोऽह-
 मिति सर्वेषां भूतानामिति चोक्तवान् । स्वबाहुवलमाश्रित्य
 वृत्रश्च निहतो मया ॥ १७ ॥ देवासुरेषु प्राप्तेषु सङ्ग्रामेषु च
 नारद । युद्धस्यात्मेच्छया कृष्णो मुनेः सुविदितं तव ॥ १८ ॥
 बहुनात्र किमुक्तेन तस्माद् दिष्ट्यां प्रवर्ततम् । ज्ञातिभेदो न नः
 कार्यः साक्षी त्वं मम नारद ॥ १९ ॥ ममोरसि गदां मोक्तुमुद्यतो
 यदि केशवः । अनुशब्दाद्य पौलोमीं गुणः क इह दृश्यते ॥ २० ॥

हे ॥ १३ ॥ उसने मेरे विरुद्ध पहिले भी बहुतसे कार्य किये हैं,
 तब भी हे नारदजी ! मैंने यह भाई है यह समझा उन सब
 अपराधोंको सह लिया था ॥ १४ ॥ पहिले इसने खाण्डववनमें
 अर्जुनका रथ हाँक कर, उद्धत अग्निको शान्त करने वाले मेरे
 मेघोंको लौटा दिया था ॥ १५ ॥ और इसने गोवर्धनको धारण
 करके भी मेरा अपकार किया था, और जब मैंने वृत्रासुरके
 वधके अवसर इससे लहायता माँगी थी ॥ १६ ॥ तब इसने
 कहा था, कि--मेरे लिये तो सब माणी एगसे हैं उस समय मैंने
 अपने भुजवलका आश्रय लेकर वृत्रासुरको मार डाला था १७
 हे मुनि नारद ! इन्होंने देवासुर संग्रामके समय अपनी इच्छा-
 नुसार ही युद्ध किया था, यह बात आपको विदित ही है १८
 अब बहुत बातें करनेसे क्या लाभ है ? अब मारव्यके ऊपर
 ही चलना चाहिये, हे नारद ! मैं जातिमें भेद नहीं पढ़ने देना
 चाहता, इस बातके तो आप साक्षी हैं ही ॥ १९ ॥ केशव
 इन्द्राणीका नाम लेकर मेरे हृदयमें गदाका प्रहार करनेको उद्यत

उदवासगतो धीमान् पिता नः कश्यपः गभुः । अदित्या सह मे
 माना तयोर्नाम्यमिदं भवेत् ॥२१॥ अजितात्मा गम भ्राता रजसा
 तमसा वृतः । कामेन च स्त्रियो वाग्यादेव गामुक्तवान् गुरुम् २२
 सर्वथा विप धिक् राज्यं धिक्क्रयाः स यथा तथा । यत्राधि-
 त्तिस्रवान् विष्णुरेवं मां स्त्रीजितो द्विज ॥२३॥ न दृष्टं कश्यपकुले
 व्यपदेश्यं महामुने । नैव दन्तकुलं दृष्टं पातुर्मे यत्र सम्भवः । २४।
 न ज्येष्ठता न राजात्वं देवानां प्रथिमानितम् । कामरागाभिभूतेन
 कृष्णेन खलु नारद ॥ २५ ॥ पुत्रदारसहस्रैर्हि भ्राताऽनघ
 विशिष्यते । सद्रष्टुो ज्ञानसंपन्न इति ब्रह्मापुराऽब्रवीत् ॥२६॥
 नास्ति भ्रातृसमो बन्धुराहार्य इतरो जनः । इति गामत्रवीन्माता

होगया, तब उसमें अब कौनसा गुण दीखता है ॥२०॥ हमारे
 पिता बुद्धिमान् कश्यपजीने मेरी माताके साथ मेरे घर पर
 आकर यह बात कहेंगे, कि-॥२१॥ (मेरा) तेरा भाई अजि-
 तात्मा है, रजोगुण और तमोगुणसे व्याप्त है अत एव उसने
 मुझ (तुझ) गुरुसे स्त्रीके कारण कामवश ऐसी बात कही है २२
 हे विप ! राज्यको सर्वांगी विकार है, और क्रियाओंको भी
 धिक्कार है, क्योंकि-हे द्विज ! उनके ही कारण स्त्रीजित् विष्णुने
 मुझ पर इस प्रकार आक्षेप किया है ॥२३॥ हे महामुने ! आज
 तक कश्यपकुलमें कोई अंगुली उठानेका काम नहीं हुआ है और
 जिस दन्तके कुलमेंसे मेरी माताकी उत्पत्ति हुई है, उस दन्त-
 कुलमें भी ऐसा कोई गायी नहीं हुआ है ॥ २४ ॥ हे नारद !
 काम और रागसे तिरस्कृत कृष्णने बड़प्पनका और देवताओंके
 राजा होनेका भी कुछ भाग नहीं दिया ॥ २५ ॥ हे निष्याप !
 सदाचरणी ज्ञानसम्पन्न भाई सहस्रों पुत्र और स्त्रियोंसे श्रेष्ठ
 है यह बात ब्रह्माजीने पहिले कही है ॥ २६ ॥ भाईके समान
 कोई बन्धु नहीं है दूसरे गनुष्य तो खानेके लिये होते हैं अथवा

पिता चैव प्रजापतिः ॥२७॥सोदरे तु विशेषन्तु पिता ये कश्यपे-
 ऽब्रवीत् । ह्यसा मया निरुद्धयन्ते दानवाः पापनिश्चयाः ॥ २८ ॥
 काममेतन्न वक्तव्यं स्वयमात्मस्तवान्वितम् । प्राप्तस्त्ववसरो विप्र
 यदिहाद्योच्यते मया ॥ २९ ॥ धनुर्ज्यायां मुनिश्रेष्ठ छिन्नायां हि
 पुरानघ । धन्विभिरमराणां च वरदान्महामुने ॥३०॥ उत्कृत्-
 शिरसो विष्णोः पुरा देहो धृतो मया । सन्धिते च शिरो यत्ना-
 छिन्नं रौद्रेण तेजसा ॥ ३१ ॥ अहं विशिष्टो देवानामित्युक्त्वा
 पुनरच्युतः । धनुरारोप्य दर्पेण स्थितो नारद केशवः ॥ ३२ ॥
 किं मां पिता वा माता वा वक्ष्यतीति मया मुने । स्नेहेन च
 स्थितं विष्णोः शरीरं मुनिसत्तम ॥ ३३ ॥ ऐन्द्रैषणवमस्यैव

उनको बनाना पड़ता है इस प्रकार मेरी माता और पिता प्रजा-
 पतिने कहा है ॥ २७ ॥ मेरे पिता कश्यपजीने सहोदर भाईको
 और भी विशेष बताया है पापी विचार रखने वाले दानव ही
 घण्टड़ी होकर मुझसे विरोध किया करते है ॥ २८ ॥
 अपनी स्तुतिकी यह बात मुझे कहनी न चाहिये थी यह ठीक
 है परन्तु आज अवसर आने पर मुझे यह बात कहनी
 पड़ती है ॥ २९ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! हे महामुने ! हे निष्पाप ! जब
 धनुषधारी महादेवजीने (बाण मारा था) तब विष्णुका शिर
 अर्थात् यज्ञपुरुषका शिर धनुषकी डोरीके टूटनेके साथ ही
 (कट गया था) उस समय देवताओंके वरदानसे अर्थात् कहनेसे
 मैं कटे हुए शिर वाले विष्णुके देहको रोके रहा था और मैंने
 रुद्रके तेजसे कटे हुए विष्णु शिरको यत्नपूर्वक जोड़ दिया था
 (इसका विशेष इतिहास शतपथमें देखना चाहिये) ॥३०॥३१॥
 परन्तु हे नारद ! उसी समय केशव दर्पमें भर अपने धनुषको
 तानकर यह कहने लगे, कि मैं देवताओंमें श्रेष्ठ हूँ ॥ ३० ॥
 हे मुनिसत्तम ! उस समय मेरे माता पिता मुझसे क्या कहेंगे इस

मुने भागगहं ददौ । यवीयांसमहं प्रेम्णा कृष्णं पश्यामि] नारद
संग्रामेषु गहर्तव्यं तेन पूर्वं तपोधन । राजा किलाहं समरे प्रह-
राम्यग्रतो ध्रुवम् ॥ ३५ ॥ गाढुर्भावेषु सर्वेषु स्वशरीरमिवानघ ।
यतो रच्यामि धर्मज्ञ केशवं भक्तिमाश्रितम् ॥ ३६ ॥ इदं भञ्ज्वा
मदीयं च भवनं विष्णुना कृतम् । उपर्युपरि लोकानामधिकं
भुवन मुने ॥ ३७ ॥ अवमानः स च मया पृष्ठतः क्रियते मुने ।
लालनीयो मया बाल इत्येवं भ्रातृगौरवात् ॥ ३८ ॥ बालोऽयं
मम पुत्रेति यवीयानिति नारद । पिना मात्रा च गोविन्दो मानी
च परिभाषितः ॥ ३९ ॥ इष्टस्तत्र जनानां च केशवः सुविशेषतः ।
वयं द्वेष्या न सन्देहस्तत्र स्नेहोऽतिरिच्यते ॥ ४० ॥ सर्वज्ञो बल-

विचारके कारण और स्नेहके कारण ही श्रीकृष्णका शरीर बन
रहा था ३३ हे मुने ! मैंने अपने ऐन्द्र भागको वैष्णव बना कर
इनको देदिया था अर्थात् श्रावण और भाद्रपद महीने मैंने इन
को देदिये थे इस प्रकार हे नारद ! मैं इन छोटे भाई कृष्णको
गेषकी दृष्टिमें देखता था ॥ ३४ ॥ हे तपोधन ! मुझे संग्राममें
पहार करना चाहिये मैं राजा हूँ इस लिये संग्राममें मैं आगे
कर पहार करता हूँ ॥ ३५ ॥ हे निष्ठाप ! केशव मेरी भक्ति
करते थे इस लिये हे धर्मज्ञ ! मैं इनकी प्रत्येक अवतारोंमें अपने
शरीरकी समान ही रत्ता करता था ॥ ३६ ॥ हे मुने ! मेरे इस
भवनको भङ्ग कर विष्णुने अपना भुवन सब लोकोंसे ऊपर
बनाया है ॥ ३७ ॥ हे मुने ! इस अपमानको भी " यह मेरा
बालक है अतः मुझे इसका लालन करना चाहिये, इस भाई
चोरसे" मैंने सहलिया था ॥ ३८ ॥ हे नारद ! मेरे माता पिताने
कहा था, कि "यह तेरा पुत्र मा है और तेरा छोटा भाई है और
यह मानी है" ॥ ३९ ॥ केशव तो मनुष्योंके प्यारे है और हम
(क्या) विशेष द्वेष है ? परन्तु क्या कर्ह मेरा उससे स्नेह

वाञ्छुरः पात्रं मानयिता तथा । केशवेत्येव च ध्यानं यत्तद्वि
 तयतां गतम् ॥४१॥ गच्छ नारद वक्तव्यः केशवो वचनान्गम ।
 आहूतो न निवर्तेयं समरं प्रति शत्रुभिः ॥ ४२ ॥ यदीच्छसि
 तदा गच्छ सह्यं ते यत्त्वमिच्छसि । प्रहरस्व न पूर्नं त्वं भार्याजित
 यथेच्छसि ॥ ४३ ॥ रथागेनाथ शार्ङ्गेण गद्या नन्दकेन च ।
 प्रहरारुह्य गरुडं दृढो भूत्वा जनार्दन ॥४४॥ महते प्रहरिष्यामि
 यथाशक्त्या च केशव । अहो भिग्यदि मां स्नेहो विपत्तवं न करि-
 ष्यति ॥४५॥ यावन्न संग्रामगतो जितोऽहं चक्रपाणिना । पारि-
 जातं न दास्यामि तावद्भो मुनिसत्तम ॥ ४६ ॥ मां सगाहयते
 ज्येष्ठं यत्रीयान् स तपोवन । अहं तं गर्षयिष्यामि किमर्थं स्त्रीजितं
 हरिम् ॥ ४७ ॥ अथैव गच्छ भगवन् द्वारकां कृष्णपालिताम् ।

अधिक था ॥ ४० ॥ मेरा आज यह ध्यान भूँडा होगया, कि-
 केशव सर्वज्ञ बलवान् शूर पात्र और गान करने वाला है ४१
 हे नारद ! अब आप जाइये और मेरे कहनेसे श्रीकृष्णसे कहना,
 कि-मैं शत्रुओंके आह्वान करने पर समरसे नहीं हटा करता
 हूँ ४२ तेरी जब इच्छा हो तब आजाना तू जिस बातको च ह
 रहा है वह तेरे योग्य ही है हे स्त्रीके जीने हुए ! तू अपनी इच्छा-
 नुसार पहले प्रहार कर ॥ ४३ ॥ हे जनार्दन ! तू गरुडके ऊपर
 चढ़ दृढ़ होकर चक्र शार्ङ्ग धनुष गदा अथवा नन्दकफा पेरे ऊपर
 प्रहार कर ॥ ४४ ॥ अहो ! स्नेहको भिक्कार है यदि उस समय
 स्नेह मुझे विवश नहीं करेगा तो मैं तेरे प्रहार करने पर तेरे ऊपर
 यथाशक्ति प्रहार करूँगा ॥ ४५ ॥ हे मुनिसत्तम ! जबतक चक्र-
 पाणि मुझे संग्राममें न जीत लेगा तब तक तो मैं पारिजातको
 नहीं दूँगा ॥ ४६ ॥ हे तपोवन ! जब वह छोटा होकरभी मुझ
 चढ़ेका आह्वान करता है तब मैं स्त्रीके गीतनेमें आए हुए कृष्ण
 को क्यों सहूँ ॥ ४७ ॥ हे भगवन् ! आप कृष्णसे पालित द्वारका

विवादे संस्थितः सोऽङ्ग इति वाच्यस्त्वयाऽच्युतः ॥४८॥ पलाश-
पत्रार्थमपि त्वया जितो न पारिजातस्य तव प्रदास्यति । इति
प्रवाच्यो गधुमूदनस्त्वया वचो मदीयं स्मरता तपोधन ॥ ४९ ॥
पुनः प्रवाच्यो भगवंस्त्वयाऽच्युतो मम प्रियार्थं खलु निर्विशंकि
तम् । न मायया हर्तुमिहार्हसि द्रुमं सुयुद्धमेवास्तु धिगस्तु जिह्म-
ताम् ॥ ५० ॥

इति श्रीमहाभारते ग्विलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे
इन्द्रवाक्यं नाम सप्ततिमोऽध्यायः ॥ ७० ॥

वैशम्पायन उवाच । महेन्द्रवचनं श्रुत्वा नारदो वदताम्बरः ।
विविक्ते देवराजानमिदं वचनमब्रवीत् ॥१॥ कामं मियाणि राजानो
वक्तव्या नात्र संशयः । प्राप्तं कालं तु वक्तव्यं हितमपियमप्युत २
अनियुक्तपुरोभागो न स्यादिति वदन्ति हि । सुलोका गति-
को आज ही जाइये और उस विवाद करने वाले मूर्ख कृष्णसे
यह सब बात कह दीजिये ४८हे तपोधना आप मेरे वचनका स्मरण
कर गधुमूदनसे कहना, कि-जब तक तुम इन्द्रको नहीं जीत लोगे
तब तक वह तुमको पारिजातके पत्रका आधा टुकड़ा भी नहीं
देगा ४९ तदनन्तर आप मेरा प्रिय करनेके लिये निःशंक होकर
अच्युतसे कहदेना, कि-तुम कपट करके इस वृक्षको न लेजाना
हमारा तुम्हारा युद्ध ही होना चाहिये, कुटिलताको तो धिक्कार
है ५० सत्तरवाँ अध्याय समाप्त ७०

वैशम्पायनजीने कहा कि वक्ताओंमें श्रेष्ठ नारदजीने इन्द्रके
वचनको सुनकर एकान्तमें देवराज इन्द्रसे यह बात कही, कि १
राजाओंसे प्रिय बात ही कहनी चाहिये इस बातमें कुछ सन्देह
नहीं है फिर भी अवसर आने पर हितकी अप्रिय बात भी कहनी
चाहिये २ किसीके बिना यूँके हुए उसके सामने पड़कर कोई
बात नहीं कहनी चाहिये, इस बातको अच्छे २ गनुष्य कहते हैं

तत्त्वज्ञो नयविज्ञानकोविदः ॥ ३ ॥ कार्याकार्ये समुत्पन्ने परि-
 पृच्छति मां भवान् । यतस्ततः प्रवक्ष्यामि गृह्यतां यदि रोचते ४
 अनुक्तेनापि सुहृदा वक्तव्यं जानता हितम् । न्यार्य्यं च प्राप्तकालं
 च पराभवमनिन्द्यता ॥ ५ ॥ वक्तव्यं सर्वथा सद्भिरप्रियं चापि
 यद्वितम् । आनृण्यमेवत् स्नेहस्य सद्भिरेवाहतं पुरा ॥ ६ ॥
 अनृते धर्मभग्ने च न शुश्रूषति चाप्रिये । न प्रियं न हितं वान्यं
 सद्भिरेवेति निन्दिताः ॥७॥ सर्वथा देव वक्तव्यं श्रूयतां शृण्वतां
 वर । श्रुत्वा च कुरु सर्वज्ञ मम श्रेयस्करं वचः ॥८॥ अन्योन्य-
 भेदो भ्रातॄणां सुहृदां वा बलान्तक । भवत्यानन्दकृदेवद्विपतां नात्र
 संशयः । हितानुबन्धसहितं कार्यं ज्ञेयं सुरेश्वर । विपरीतं च
 तद्बुद्ध्वा नित्यं बुद्धिमताम्बर ॥ १० ॥ यत् स्यात्तापकरं पश्चा-

फिर भी नीति और विज्ञानमें चतुर गतिके तत्त्वको जानने वाले
 आपने मुझसे कार्य और अकार्यके सम्बन्धसे पूछा है, अतः मैं
 कहता हूँ यदि आपके वह बात अच्छी लगे तो उसको ग्रहण
 कर लीजिये ३-४ मित्र यदि हितकारी बातको जानता हो तो
 मित्रके न बूझने पर भी अपने मित्रके पराभवको न चाह कर
 समयोचित उचित बात कहे ५ हितकारी बात अप्रिय हो तब भी
 सज्जन उसको भली प्रकार कहे, सज्जनोंने कहा है, कि इस
 प्रकार मनुष्य स्नेहसे अनृण होजाता है ६ भूठ बोलने वाले
 धर्मभ्रष्ट सेवा न करने वाले और अप्रिय-पुरुषसे हित और प्रिय
 बात नहीं कहनी चाहिये क्योंकि सज्जनोंने इनकी निन्दाकी है ७
 हे सुनने वालोंमें श्रेष्ठ ! मुझे सर्वदा यह बात कहनी चाहिये और
 इस बातका सुनिये हे सर्वज्ञ ! मेरे कल्याणकारी वचनको सुनकर
 आप वैसा ही करिये हे बलदैत्यका नाश करने वाले ! मित्रोंका
 अधवा भाईयोंका आपसी भेद शत्रुओंके आनन्दको बढ़ाता
 है ८-९ हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ सुरेश्वर ! अपने हितकी बातको और

दारब्धं कार्यमीदृशम् । आरभेन्नैव तद्विद्विनेष बुद्धिमतां नयः ११
 विपाकमस्य कार्गस्य नानुपश्यामि शोभनम् । यदत्र कारणं देव
 निबोध विद्वुःशशिप ॥ १२ ॥ य एको विश्वमध्यास्ते प्रधानं
 जगतो हरिः । प्रकृत्यागं परं सर्वे क्षेत्रज्ञं वै विदुर्वुधाः ॥ १३ ॥
 तस्याव्यक्तस्य यो व्यक्तो भागः सर्वभवोद्भवः । तस्यात्मा परमो
 देवो विष्णुः सर्वस्य धीमतः ॥ १४ ॥ प्रकृत्याः प्रथमो भाग
 उमादेवी यशस्विनी । व्यक्तः सर्वमयो विश्वः स्त्रीसंज्ञो लोक-
 भावनः ॥ १५ ॥ रुक्मिण्याद्याः स्त्रियस्तस्या व्यक्तत्वे प्रथमो

अद्वितीयो वातको सर्वदा समभक्त कर हो काम करना चाहिये १०
 जो कार्य ऐसा हो, कि-जिसका आरम्भ करने पर पीछेसे पश्चा-
 त्ताप करना पड़े उसको विद्वान् पुरुष आरम्भ ही न करें यह
 बुद्धिमानोंका विचार है ११ हे देव ! मुझे इस कार्यका फल
 अच्छा नहीं मालूम पड़ता हे देवराज ! इसके कारणको भी आप
 मुनिये १२ जो विश्व पर अर्थात् कार्य पर और प्रधान पर अर्थात्
 कारण पर (जैसे रथपर रथवान्) अधिष्ठित रहना है और जिस
 प्रकृति अर्थात् मायासे परको सब जन क्षेत्रज्ञ अर्थात् कारण स्थूल
 सूक्ष्म देहरूप क्षेत्रको जाने वाला कहते हैं १३ उस सबके उत्पत्ति-
 स्थान अव्यक्तका अर्थात् अव्याकृतका जो व्यक्त भाव है अर्थात्
 जो कार्य हिमवतगर्भ आदि है यह उस सबके आत्मा अर्थात्
 अन्तर्यामी चेतयिता है और चेतना वाले जन्तुमात्रके भी यह परम-
 देव विष्णु चेतयिता अथवा बीज है १४ यह रुद्रसे भी अभिन्न
 है इस बातकी दिखाते हैं, कि- यशस्विनी उमा देवी प्रकृतिका
 प्रथम व्यक्त भाग है अर्थात् चित् शक्तिका मुख्य दृश्यमात्राकार
 मुख्य अंश है सर्वमय है विश्वस्त्रीसङ्ग है अर्थात् सारी भोग्य-
 वस्तुरूप है अत एव लोकभावन है अर्थात् वह भाग चेतनका तृप्त
 करने वाला है १५ रुक्मिणी आदि स्त्रियों भी उस प्रकृतिके व्यक्त

गुणः । अत्र्ययः प्रकृतिर्देवी गुणी देवो महेश्वरः ॥ १६ ॥ न
 विशोपोऽस्य रुद्रस्य विष्णोश्चामरसत्तम । गुणिनश्चाव्ययः शास्ता
 सदा च प्रथमोऽमुणः ॥ १७ ॥ नारायणो महादेवाः सर्वकृत्स्नोऽरु-
 भावनः । भोक्ता महेश्वरो देवः कर्ता विष्णुरधोत्तमः ॥ १८ ॥
 ब्रह्मा देवगणाथान्ये पश्चात् सृष्टा महात्मना । महादेवेन देवेश
 प्रजापतिगणास्तथा ॥ १९ ॥ एषं पुराणपुरुषो विष्णुर्देवेषु पठ्यते
 अचिन्त्यश्चाप्रमेयश्च गुणेभ्यश्च परस्तथा ॥ २० ॥ अदित्या तपसा
 विष्णुर्महात्माऽऽराधितः पुरा । वरेण चन्द्रन्दिता तेन परितुष्टेन
 चादितिः ॥ २१ ॥ तयोक्तस्त्वत्समं पुत्रपिच्छ्वापीति सुरोत्तम ।

मुख्य अंश हैं देवी (उमा वा रुक्मिणी) अत्र्यय प्रकृति हैं और
 उनसे उपहित गुणी (रुद्र ना विष्णु) महेश्वर हैं ॥ १६ ॥
 हे अमरसत्तम ! गुणी अर्थात् मायावी रुद्रमें और विष्णुमें कुछ
 भेद नहीं है उस गुणीका भी जो शास्ता है वह अत्र्यय है अर्थात्
 अध्यस्त होनेसे पहले अपरिणागी है अत एव अमुण है १७
 नारायण है सबको रचने वाला है, लोकपूज्य है महातेजस्वी है
 अत एव उस महात्माने भोक्ता रुद्र कर्ता अधोत्तम विष्णु और
 ब्रह्मा आदि देवताओंको रचा है और हे देवेश ! उन महादेवने
 प्रजापतिके गुणोंको भी रचा है (इस बातसे यह प्रमाणित होता
 होता है, कि-नारायणकी चार मूर्तियों हैं एक २ गुणकी उपाधि
 वाली ब्रह्मा विष्णु और रुद्रकी मूर्ति हैं और दूसरी सब गुणोंकी
 उपाधि वाली मूर्ति है उसने ही भोक्ता रुद्र कर्ता विष्णु और
 बुद्धयभिमानी ब्रह्मा और इन्द्रियाभिमानी देवताओंको रचा है) १९
 इसप्रकार पुराण पुरुष विष्णु देवताओंमें अचिन्त्य अप्रमेय और
 गुणोंसे पर कहलाते हैं ॥ २० ॥ पहले अदितिने तप करके
 महात्मा विष्णुकी आराधना की थी उस समय विष्णुने सन्तुष्ट
 होकर अदितिको वर देनेका अनुग्रह किया था ॥ २१ ॥ तब उसने

प्रणिपत्य च विज्ञाय नारायणमशोत्तमम् ॥ २२ ॥ तेनोक्तं भुवने
नास्ति मत्समः पुरुषोऽपरः । अंशेन तु भविष्यामि पुत्रः खल्व-
हमेव ते ॥ २३ ॥ स जानः सर्वकृद्देवो भ्राता तव सुरेश्वर ।
नारायणो महानेजा यमुपेन्द्रं प्रचन्तते ॥ २४ ॥ इच्छन्नेव हरि-
र्देवकार्यपत्वमुपागतः । तैस्तैर्भागैर्विकुरुने भूतभद्र्यभवाप्ययः २५
प्रादुर्भावं गतो देवो जगतो हितकाम्यया । माथुरं जगतो नाथः
कर्ता हर्ता च केशवः ॥ २६ ॥ यथा पल्लवपिंडः स्याद्रथाप्तः स्नेहेन
मान्द । तथा जगदिदं व्याप्तं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ २७ ॥
ब्रह्मण्यदेवः सर्वात्मा तैस्तैर्भावैर्विकुर्वति । जगत्पतिगुणो देवो

कहा था, कि- हे सुरोत्तम ! मैं आपके समान ही पुत्रको चाहती
हूँ उसने यह बात अशोत्तम नारायणसे प्रणाम करके कही थी
(अर्थात् यह तुम्हारे भाई हैं तब भी कोई साधारण वस्तु नहीं
है क्योंकि-इनमें अकर्मजनित देवभाव है और तू तो कर्म देव
होनेसे उनसे निकृष्ट है) ॥ २२ ॥ उस समय उन्होंने कहा था,
कि- इस भुवनमें मेरी समान कोई भी नहीं है इसलिये मैं ही
अपने अंशसे तुम्हारा पुत्र बनकर उत्पन्न होऊँगा ॥ २३ ॥
हे सुरेश्वर! सबके रचने वाले वह महातेजस्वी नारायणदेव कि-
जिनको उपेन्द्र कहते हैं वह तुम्हारे भाई बनकर उत्पन्न हुए
हैं ॥ २४ ॥ भूत और भविष्यत्के उत्पत्ति और मल्लके स्वात्त
अर्थात् सब जगत्के उपादान कारण हरि अपनी इच्छासे
करयपके पुत्र बन गए हैं और भिन्न २ धर्मोंसे विकारको प्राप्त
होते हैं (वास्तवमें गुणानीत हैं) ॥ २५ ॥ वही जगत्के नाथ
और जगत्के कर्ता हर्ता जगत्का हिन करनेकी इच्छासे मथुगमें
केशव नामसे प्रकट हुए हैं ॥ २६ ॥ हे मान्द ! जैसे मांसपिंड
स्नेहसे अर्थात् चिकनाईसे बचाता है इसीप्रकार यह सारा
संसार प्रभावशाली विष्णुसे व्याप्त है ॥ २७ ॥ वह- सर्वात्मा

वैकुण्ठः सर्वभावनः ॥ २८ ॥ अतः सगस्तदेवानां पूज्य एव च
 केशवः । पद्मनाभश्च भगवान् प्रजासर्गकरो विभुः ॥ २९ ॥
 अनन्तो धारणार्थं च विभक्तिं च महद्युगः । यज्ञ इत्यपि सद्भिश्च
 कथ्यते वेदवादिभिः ॥ ३० ॥ श्वेतः कृत्तयुगे देवो रक्तस्त्रेतायुगे
 तथा । द्वापरं च तथा पीतः कृष्णः कलिपुगे विभुः ॥ ३१ ॥

ब्रह्मण्यदेव उन २ भावोंसे जगत्में विचारको प्राप्त होते हैं वास्तव
 में वह सर्वपूजित वैकुण्ठदेव अगुण ही हैं (अर्थात् वह सर्वांग
 व्यष्टि (अन्तग अज्ञग) समष्टि (समूहाकार) देव इन्द्रिग आदि
 आकारवाला होकर विकृतःहो जाता है 'मर्थात् में सर्वज्ञ हूँ अथवा
 दुःखी हूँ ऐसे अभिमान वाला जाना है वास्तवमें वह गुणातीत
 है) ॥ २८ ॥ इस लिये केशव सब देवताओंके पूज्य है भगवान्
 पद्मनाभ है और प्रजाकी रचना करने वाले व्यापक है ॥ २९ ॥
 शेष भी पृथ्वीको धारण कर अतिगशस्वी हो रहे है (वह बल
 देव हुए हैं) वेदवादी सज्जन (श्रीकृष्णको) यज्ञ भी कहते
 हैं ॥ ३० ॥ यह विभुदेव कलिपुगमें श्वेत होते हैं त्रेतायुगमें रक्त
 होते है द्वापरयुगमें पीत होते है और कलिपुगमें कृष्ण होते हैं
 (श्रुतिमें लिखा है, कि- 'कलिः शयानो भवति सज्जिहानस्तु
 द्वापरः । उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्' अर्थात् जो
 अविद्यारूपी निद्रामें सोता रहता है उस मूढ़ पुरुष कलिपर
 अनुग्रह करनेके लिये ईश्वर कृष्ण अवतारको धारण करते हैं
 यत्किञ्चित्श्रेयवाला द्वापर अर्धगबुद्ध होता है उस समय ईश्वर
 पीत अर्थात् सुवर्णकी समान मनोहर होते हैं थोड़ी भक्तिसे ही
 भक्तकी ओर उन्मुख होजाते है, कल्याणके लिये यत्न करनेवाला
 त्रेता कहलाता है उसपर अनुग्रह करनेके लिये वह गाताकी
 समान रक्त अर्थात् स्नेह करनेवाले होते हैं और जो युधिष्ठिर
 आदिकी समान अत्यन्त भक्त होता है उस कुशल पुरुषके प्रति

अवतीत् स हिरण्यकान्तं दिव्यरूपधरो हरिः । दधाराप्लु निम-
ज्जन्तीमेव देवो वसुधराम् ॥ ३२ ॥ चाराहं वपुराश्रित्य जगतो
हितकाम्यया । जघ्ने हिरण्यकशिपुं नारसिंहवपुर्हरिः ॥ ३३ ॥
जिगाय जगतीं चैव विष्णुर्नामनखपृक् । ववन्ध च वलिं देवः
श्रीमान् पन्नगवन्धनैः ॥ ३४ ॥ देवदानवसम्भूतामाक्रामगदपि
श्रियम् । त्वय्यनन्तः पुरा विष्णुरुदारोऽपितविक्रमः ॥ ३५ ॥
सावशेषं तपो यस्य तन्निहन्ते जनार्दनः । अलीनेष्वपि वर्ततं
व्रतमेतन्महात्मनः ॥ ३६ ॥ जघ्ने च दानवान् मुख्यान् देवानां
ये च शत्रवः । तत्र प्रियार्थं गोविंदो धर्मनित्यः सर्वा गतिः ३७
रामत्वमपि चावाप्य जघ्ने रावणमात्मवान् । भूत्वा कामगुणा-
बह शुक्ल होते है अर्थात् अपने शुद्धरूपको ही प्रकाशित कर-
देते है) ॥ ३१ ॥ इन दिव्यरूप धारण करने वाले हरिने हिर-
ण्यकान्तो मारडाला था और इन देवने जगत्गा हित करनेकी
इच्छासे बराहका शरीर धारण कर जलमें डूबती हुई पृथ्वीका
उद्धार किया था और इन हरिने नरसिंहका शरीर धारण
करके हिरण्यकशिपुको मारडाला था ३२-३३ और इन श्रीमान्
विष्णुदेवने वापनका रूप धारण कर पृथ्वीको जीत लिया था
और सर्पवन्धनोंसे बलिको बंध लिया था ॥ ३४ ॥ इन अमित-
विक्रमी अनन्त और उदार विष्णुने देवदानवोंकी साधारण
लक्ष्मीको भी तुभ्यं स्थापित करदिया था ॥ ३५ ॥ यह जना-
र्दन, नित्यका कुल्ल तप नावी रहनाता है और जो मायामें लिपटे
रहते हैं उनको मार डालने है यह इन महात्माका व्रत है ३६ धर्म-
नित्य सज्जनों की गति गोविन्दने तुम्हारा प्रिय करनेके लिये
देवताओंके शत्रु मुख्य २ दानवोंको भी मारडाला है ॥ ३७ ॥
इन आत्मवानने रावणनारमे रावणको मारडाला था और
अनारोमं गयेष्ट शौर्गादि गुणोंवाले राजसोंको इस प्रकार

धैव जघान द्विरदं हरिः ॥ ३८ ॥ दिताय जगतोऽद्यापि लोके
 वसति गानुगे । उपेंद्रो जगतां नाथः सर्वभूतोत्तमोत्तमः ॥ ३९ ॥
 जटी कृष्णाग्निनी दण्डी दृष्टपूर्वो मया हरिः । दैतयेषु चरन्
 देवतृणेष्वग्निरिवोद्भूतः ॥ ४० ॥ अद्रान्तमपि गोविंदं दानवै-
 कार्णवं जगत् । कुर्वाणं दानवैर्हीनं जगतो हितकाम्यया ॥ ४१ ॥
 अवश्यं पारिजातं ते नयिष्यति जनार्दनः । द्वारकामपरश्रेष्ठ
 नावृतं च व्रवीम्यहम् ॥ ४२ ॥ भ्रातृस्नेहाग्निभूतस्त्वं न कृष्णे
 प्रहरिष्यसि । नातिकृष्णस्त्वयि ज्येष्ठे प्रहरिष्यति वासव ॥ ४३ ॥
 नैव चेच्छ्रोष्यति प्रोक्तं मया देव कथंचन । पृच्छ त्वं नयवर्गज्ञान ये
 हितास्तव मन्त्रिणः ॥ ४४ ॥ वैशम्पायन उवाच । नास्देनैव-
 मुक्तस्तु महेन्द्रो जनमेजय । इदमुत्तरमीशोऽथ प्रत्युवाच जगद्

मारहाला या जैसे सिंह हस्तीको मारहालता है ॥ ३८ ॥ सब
 श्रेष्ठ भूतोंसे भी उत्तम जगत्के नाथ यह उपेन्द्र आज कल भी
 जगत्का हित करनेके लिये मनुष्यलोकमें निवास कर रहे है ३९
 जिस प्रकार तिनकोंमें अग्नि उद्भूत होकर विचरण करता है,
 इसीप्रकार जटी कृष्णमृगका चर्म और दण्ड धारण करनेवाले
 नारायणको मैंने दैत्योंमें घूमते हुए देखा है ॥ ४० ॥ मैंने देखा
 है, कि-जगत्का हित करने भी दृष्टासे इन्होंने दानवोंसे
 व्याप्त सारे जगत्को दानवोंसे रहित करदिया था ॥ ४१ ॥
 हे अमरश्रेष्ठ ! श्रीकृष्ण द्वारकामें पारिजातको अवश्य ही
 लेजायेंगे इस बातको मैं असत्य नहीं कहना हूँ ॥ ४२ ॥ हे
 वासव ! भ्रातृस्नेहके बशमें होकर तुम कृष्णके ऊपर प्रहार न कर
 सकोगे और श्रीकृष्णभी तुम वड़े भाई हो इसकारण तुमपर
 प्रहार न करसकेंगे ॥ ४३ ॥ हे देव ! आप मेरी बातको यदि
 किसी प्रकार भी नहीं सुनें तो आप अपने नीनि धर्मका
 जाननेवाले हितकारी मन्त्रियोंसे बृह्मिणे ॥ ४४ ॥ वैशम्पायनजीने

कम् ॥ ४५ ॥ एवं विधमभावं त्वं कृष्णं वदसि यद् द्विन ।
 जमेतत् सुब्रह्मशः श्रुत खलु गगा मुने ॥ ४६ ॥ यतश्चैवंविधः
 ऽप्यास्तनोऽहं तस्य वै तरुम् । न प्रदास्यामि दातव्यं सता धर्म-
 नुम्बरन ॥ ४७ ॥ महाप्रभावो नात्पार्थ्यं कृष्येद्विनि विचिंतयन् ।
 ज्यवस्थितोऽहं भद्रन्ते मुने सर्वगुणादिति ॥ ४८ ॥ महाप्रभावाः
 मततं भवन्ति हि सविष्णवः । श्रोतारश्चैव सततं वृद्धानां ज्ञान-
 वक्षुषाम् ॥ ४९ ॥ महाऽमा कारणोनात्पकृष्णो धर्म भूताम्बरः ।
 भ्राना ज्येष्ठेन सर्वज्ञो विरोधं गन्तुमर्हति ॥५०॥ यथैव मम गातुः
 स वरं प्रादादगोत्तनः । तथैव तस्याः पुत्राणां ज्येष्ठानां सोढु-
 मर्हति ॥ ५१ ॥ यथैवोपेन्द्रतां यातः स्वगमिच्छन् जनार्दनः ।

कहा, कि-हे जनमेजय ! जब नारदजीने इन्द्रसे इसप्रकार कहा
 तब तब ईशने जगद्गुरुके विषयमें इसप्रकार भरयुत्तर दिया,
 कि-॥ ४५ ॥ हे द्विन । आपने श्रीकृष्णके ऐसे प्रभावका वर्णन
 किया परन्तु हे मुने ! मैंने इस बातको बहुत बार सुना है ४६
 श्रीकृष्ण ऐसे हैं इसकारण ही मैं उन्हें तरु नहीं दूंगा सज्जनोंके
 धर्मका स्मरण करके इस तरुको देदेना चाहिये तब भी महा-
 प्रभावशाली पुरुष थोड़ीसी बातके लिये रुष्ट नहीं होते हैं यह
 विचारकर मैं उन्हें तरु नहीं दूंगा हे मुने ! आपका कन्याण ही
 मैं तो सब प्रकारसे अब तयार हूँ ॥ ४७-४८ ॥ महाप्रभाव-
 शाली पुरुष गर्वदा महिषणु हुआ करते हैं और ने ज्ञानरूपी
 नेत्रोंवाले वृद्धोंके वाक्योंको भी सर्वदा सुनते रहते हैं ४९ धर्मा-
 त्माओंमें श्रेष्ठ सर्वज्ञ महात्मा कृष्ण थोड़ीसी बातके लिये क्या
 अपने भाईसे विरोध करेंगे ? ॥५०॥उन अगोत्तनने जिसप्रकार
 अपनी माताको वरदान दिया है इसी प्रकार उनको उसके
 ज्येष्ठ पुत्रोंके ऊपर भी क्षमा करना चाहिये ॥ ५१ ॥ जनार्दन
 तब प्रकार अपने आधी उपेन्द्रताको प्राप्त होगए हैं इसीप्रकार

तथैव भ्रातृर्गिरस्य मन्गानं कर्तुं गहति ॥५२॥ ज्येष्ठ-धमेतेन देवेन
 नाग्न्ध रि पुरानने । अघेदानीमपीच्छेत् स ज्येष्ठोऽनु मधुसूदनः
 सुनिश्चित बलरिपुमीक्ष्य नारदो विसर्जितस्त्रिदशवरेण धमेभृत् ।
 यया पुरी यदुवृषभाभरन्तिता कुशस्थली धृतिमतिमास्तपोधनः ५४
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिश्चो विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे
 नारदस्य स्वर्गात् पुनरागमनं नामैकसप्ततितमोऽध्यायः ७१

वैशम्पायन उवाच । अर्थेद्य द्वारका रम्यां नारदो मुनिसत्तमः
 ददर्श पुरुषश्रेष्ठं नारायणपरिदमम् ॥ १ ॥ स्ववेश्मनि सुम्बा-
 सीनं सहितं सत्यभामया । विराजमान वपुषा सर्वतेजोतिगा-
 मिना ॥ २ ॥ तमेवार्थं महात्मानं चिन्तयतं दृढव्रतम् । केवलं
 योजयंतं च वाक्यगात्रेण भाविनीम् ॥ ३ ॥ दृष्ट्वा नारदं देवः

वनको अपने भाई इन्द्रका भी सत्कार करना उचित है ॥५२॥
 इन्होंने क्या प्राचीन कालमें अर्थात् वामनावतारमें मेरी
 ज्येष्ठता स्वीकार नहीं की थी अब वह मधुसूदन क्या ज्येष्ठ
 बनना चाहते हैं ॥ ५२ ॥ इसप्रकार नारदजीने बलदैत्यके
 नाशक इन्द्रकी बातको भलीभाँति सुनलिया तब देवताओंमें
 श्रेष्ठ इन्होंने धर्मात्मा नारदजीको तबसे विदा करदिया तब वह
 बुद्धिगान् तपोधन नारदजी यादवोंमें वृषभजी समान श्रीकृष्ण
 से रत्निल कुशस्थली नामकी पुरीकी ओर चले ५४ इकहचरवाँ
 अध्याय समाप्त ॥ ७१ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि इसके उरान्त मुनियोंमें श्रेष्ठ नारदजी
 ने रमणीय द्वारकामें पहुँच कर अरिदमन पुरुषश्रेष्ठ नारायणके
 दर्शन किये ॥ १ ॥ वह अपने भवनमें सत्यभामाके साथ सुम्ब-
 पूर्वक बैठे हुए थे और सब तेजोंका अतिक्रमण करने वाले अपने
 शरीरकी कान्तिसे खिल रहे थे ॥ २ ॥ वह दृढव्रत महात्मा
 उसी बातका विचार कर रहे थे और वाणीगात्रसे भी मन्व्यभाग

प्रत्युत्थाय अधोक्षजः । पूजयामास च तथा विधित्प्रेन कर्मणा ४
सुखोपविष्टं विश्रातं महस्य मधुसूदनः । वृत्तांतं परिपपच्छ पारि-
जाततरुं प्रात ॥ ५ ॥ अथाचष्ट मुनिः सर्वं विस्तरेण तपोधनः ।
इन्द्रानुजायेन्द्रवाक्पंगं निखिलं जनमेजय ॥ ६ ॥ श्रुत्वा कृष्णस्तु-
तत् सर्वं नारदं वाक्पमव्रवीत् । अग्रावर्ती पुरी यास्ये शोऽहं
धर्मभृतां वर ॥ ७ ॥ इत्युक्त्वा नारदेनैव सहितः सागरं ययौ ।
सन्दिदेश ततस्तत्र विविक्तो नारदं हरिः ॥ ८ ॥ गहेन्द्रभवनं
गर । अद्य ब्रूहि तोषन । अभिवाद्य महात्मानं मद्राज्यममरो-
त्तमम् ॥ ९ ॥ न युद्धे प्रमुखे शक स्थातुमहसि मे प्रभो । पारि-
जातस्य नयने निश्चितं त्वमत्रे हि गाम् ॥ १० ॥ एवमुक्तस्तु
कृष्णेन नारदस्त्रिदिवं गतः । आचवक्षोऽथ कृष्णोक्तं देवेन्द्रस्या-

को सगभा इहे थे ॥ ३ ॥ नारदजीको देखते ही श्रीकृष्ण उठ
खड़े हुए और उन्होंने शास्त्रीक रीतिसे उनकी पूजाकी ॥ ४ ॥
जब नारदजी विश्राम लेकर सुखपूर्वक बैठे हुए थे उस समय
मधुसूदनने उनसे पारिजात वृक्षका वृत्तान्त श्रुत्वा ५ हे जनमेजय !
उस समय तपोधन मुनिने इन्द्रके छोटे भाई श्रीकृष्णसे इन्द्रकी
सारी बात विस्तारपूर्वक कहदी ॥ ६ ॥ कृष्णने सब बात सुन
कर नारदजीसे यह बात कही, कि हे धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ! मैं कल
अग्रावती पुरीकी जाऊंगा ॥ ७ ॥ नारदजीसे इस प्रकार बात
चीन कर वह नारदजीके साथमें लेकर समुद्रकी ओर चले तहाँ
पर उन्होंने एकान्तमें नारदजीको यह सन्देशा दिया, कि-
हे तपोधन ! आज आप इन्द्रके भवनमें जाकर देवताओंमें श्रेष्ठ
महात्मा इन्द्रको गणाय कर मेरा वचन कहना, कि-९ हे शक्र !
हे प्रभो ! तुम्हें मेरे सागने युद्धमें खड़ा न होना चाहिये मेरा विचार
पारिजातकी लेगानेका है इस बातको आप ठीक ही सगम्भिये १०
श्रीकृष्णके इस प्रकार कहने पर नारदजी स्वर्गकी चले गए और

मिनोजसः ॥ ११ ॥ ततो बृहस्पतेः शक्रः शशंस चलनाशनः ।
 श्रुत्वा बृहस्पतिर्देवमुनाच कुरुन्दन ॥ १२ ॥ अहो धिग्नह्य-
 सदनं गयि याते शतक्रतो । दुर्नीतमिदं पारब्धमत्र भेदे हि
 दारुणः ॥ १३ ॥ अनाख्यात्वा कथं नाम भवता भुवनेश्वर ।
 ममैतत् कृत्यपारब्धं देव केनापि हेतुना ॥ १४ ॥ अथवा भवि-
 तव्येन कर्मजेन प्रयुज्यते । जगद् वृत्रघ्न विविधं न शक्यमनिव-
 त्तितुम् ॥ १५ ॥ सहस्रैव तु कार्याणामारंभो न पशस्यते । तदे-
 तत् सहस्रारब्धं कार्यं दास्यति लाघवम् ॥ १६ ॥ बृहस्पतिं
 महात्मानं महेन्द्रस्त्वत्रचीद्वचः । एवं गतेऽद्य यत्कार्यं तद्भवान् वक्तु-
 मर्हति ॥ १७ ॥ तमुवाचाय धर्मात्मा गतानागततत्त्ववित् । अधो-

उन्होंने अमितपराक्रमी देवेन्द्रसे श्रीकृष्णकी कही हुई बात कही? हे कुरुन्दन ! उस समय भलदैत्यका नाश करनेवाले इन्द्रने बृहस्पतिजीसे यह सब बातें कहीं इन्द्रके बचनको सुनकर बृहस्पति ने इन्द्रसे कहा, कि-॥१२॥ हे शतक्रतो ! मेरे ब्रह्मलोकको जाने पर आपने यह क्या कर लिया यह बात तो धिक्कारने योग्य है तुमने तो यह दुर्नीत काम आरम्भ करदिया इसमें तो दारुण भेद पड़नावेगा ॥१३॥ हे भुवनेश्वर देव ! आपने मुझसे बिना पूछे हुए ही इस कामको क्यों आरम्भ करदिया ॥ १४ ॥ अथवा यह सब जगत् भवितव्य कर्मके अनुसार ही चला करता है, हे वृत्रासुरका नाश करनेवाले ! जगत्में अनेक प्रकारकी घटनाएँ होती हैं उसको कोई रोक नहीं सकता ॥१५॥ कामोंका सहसा आरंभ करना अच्छा नहीं माना जाता आपने इस कामको सहसा आरम्भ करदिया है अतः यह काम आपको हलका बनादेगा १६ उस समय महेन्द्रने महात्मा बृहस्पतिसे यह बात कही कि-इस समय क्या करना चाहिये यह आप बनाइये उस समय भूत और भविष्यके तत्त्व ही जाननेवाले उदार बुद्धि धर्मात्मा बृहस्पतिजीने

प्रत्युत्थाय अधोक्ष्णः । पूजयागास च तथा विधिदृष्टेन कर्मणा ४
सुखोपविष्ट विश्रान्तं महस्य मधुसूदनः । वृत्तांत परिपपच्छ पारि-
जाततरुं प्रीति ॥ ५ ॥ अथाचष्ट मुनिः सर्वं विस्तरेण तपोधनः ।
इन्द्रानुजायेन्द्रवाङ्मं निखिलं जनमेज ॥ ६ ॥ श्रुत्वा कृष्णस्तु
तत् सर्वं नारदं वाक्यमब्रवीत् । अग्रावतीं पुरीं यास्ये शनोऽहं
धर्मभृतां वर ॥ ७ ॥ इत्युक्त्वा नारदोऽनैव सहितः सागरं ययौ ।
सन्दिदेश ततस्तत्र विविक्तो नारदं हरिः ॥ ८ ॥ महेन्द्रभवनं
गत । अद्य ब्रूहि तपोधन । अभिवाद्य महात्मानं मद्वाक्यममरो-
त्तमम् ॥ ९ ॥ न युद्धे प्रमुखे शक्यं स्थातुमहसि मे प्रभो । पारि-
जातस्य नगने निश्चितं त्वमवेहि माम् ॥ १० ॥ एवमुक्तस्तु
कृष्णेन नारदस्त्रिदिवं गतः । आचवचोऽथ कृष्णोक्तं देवेन्द्रस्या-

को सगम्भारहे थे ॥ ३ ॥ नारदजीको देखते ही श्रीकृष्ण उठ
खड़े हुए और उन्होंने शास्त्रोक्त रीतिसे उनकी पूजाकी ॥ ४ ॥
जब नारदजी विश्राम लेकर सुखपूर्वक बैठे हुए थे उस समय
मधुसूदनने उनसे पारिजात वृत्तका वृत्तान्त श्रुक्ता ५ हे जनमेजय !
उस समय तपोधन मुनिने इन्द्रके छोटे भाई श्रीकृष्णसे इन्द्रकी
सारी बात विस्तारपूर्वक कहदी ॥ ६ ॥ कृष्णने सब बात सुन
कर नारदजीसे यह बात कही, कि हे धर्मत्माओंमें श्रेष्ठ ! मैं कल
अग्रावती पुरीको जाऊंगा ॥ ७ ॥ नारदजीसे इस प्रकार बात
चीन कर वह नारदजीको साथमें लेकर समुद्रकी ओर चले तहाँ
पर उन्होंने एकान्तमें नारदजीको यह सन्देशा दिया, कि-८
हे तपोधन ! आज आप इन्द्रके भवनमें जाकर देवताओंमें श्रेष्ठ
महात्मा इन्द्रको गणाम कर मेरा वचन कहना, कि-९ हे शक्य !
हे प्रभो! तुम्हें मेरे सागने युद्धमें खड़ा न होना चाहिये मेरा विचार
पारिजातकी लोगनेका है इस बातकी आप ठीक ही सगम्भिये १०
श्रीकृष्णके इस प्रकार कहने पर नारदजी स्वर्गको चले गए और

मिनौजसः ॥ ११ ॥ ततो बृहस्पतेः शक्रः शशंस बलनाशनः ।
 श्रुत्वा बृहस्पतिर्देवमुवाच कुरुनन्दन ॥ १२ ॥ अहो धिग्ब्रह्म-
 सदनं गमि याते शतकतो । दुर्नीतमिदमारब्धमत्र भेदे हि
 दारुणः ॥ १३ ॥ अनाख्यात्वा कथं नाम भवता भुवनेश्वर ।
 ममैतत् कृत्यमारब्धं देव केनापि हेतुना ॥ १४ ॥ अथवा भवि-
 तव्येन कर्मजेन प्रयुज्यते । जगद् वृत्रघ्न विविधं न शक्यमनिव-
 र्तितुम् ॥ १५ ॥ सहस्रैव तु कार्याणामारभो न प्रशस्यते । तदे-
 तत् सहस्रारब्धं कार्यं दास्यति लाघवम् ॥ १६ ॥ बृहस्पतिं
 महात्मानं महेन्द्रस्त्वव्रवीद्वचः । पूर्वगतेऽथ यत्कार्यं तद्भवान् वक्तु-
 मर्हति ॥ १७ ॥ तमुवाचाथ धर्मात्मा गतानागततत्त्ववित् । अधो-

उन्होंने अमितपराक्रमी देवेन्द्रसे श्रीकृष्णकी कही हुई बात कही ११
 हे कुरुनन्दन ! उस समय भलदैत्यका नाश करनेवाले इन्द्रने
 बृहस्पतिजीसे यह सब बातें कहीं इन्द्रके बचनको सुनकर बृहस्पति
 ने इन्द्रसे कहा, कि-॥१२॥ हे शतकतो ! मेरे ब्रह्मलोकको जाने
 पर आपने यह क्या कर लिया यह बात तो धिक्कारने योग्य है
 तुमने तो यह दुर्नीत काम आरम्भ कर दिया इसमें तो दारुण भेद
 पड़नावेगा ॥१३॥ हे भुवनेश्वर देव ! आपने मुझसे बिना बूझे
 हुए ही इस कामकी कर्षो आरम्भ कर दिया ॥ १४ ॥ अथवा
 यह सब जगत् भवितव्य कर्मके अनुसार ही चला करता है, हे
 वृत्रासुरका नाश करनेवाले ! जगत्में अनेक प्रकारकी घटनाएँ
 होती हैं उसको कोई रोक नहीं सकता ॥१५॥ कामोंका सहसा
 आरंभ करना अच्छा नहीं माना जाता आपने इस कामको सहसा
 आरम्भ कर दिया है अतः यह काम आपको हलका बनादेगा १६
 उस समय महेन्द्रने महात्मा बृहस्पतिसे यह बात कही कि-इस
 समय क्या करना चाहिये यह आप बताइये उस समय भूत और
 भविष्यके तत्त्वको जाननेवाले उदार बुद्धि धर्मात्मा बृहस्पतिजीने

मुग्धश्चित्तगित्वा बृह पतिद्वारधीः ॥ १८ ॥ यतस्व सह पुत्रेण
योधयस्व जनार्दनम् । तथा शक्र करिष्यामि यथान्यायं भवि-
ष्यति ॥ १९ ॥ बृहस्पतिस्त्वेवमुक्त्वा क्षीरोदं सागरं गतः ।
आचष्ट मुनये सर्वं कश्यपाय महात्मने ॥ २० ॥ तच्छ्रुत्वा कश्यपः
क्रुद्धो बृहस्पतिमवापन । अर्चयं भाव्यमेन्द्रोः सर्वथा नात्र
संशयः ॥ २१ ॥ इच्छतः सदृशीं भार्या महर्षेदेवशर्मणः ।
अपध्यानकृतो दोषः पतत्येष शतकृतोः ॥ २२ ॥ अस्य दोषस्य
शांत्यर्थमारब्धश्च मुने मया । उदरासः सदोषश्च प्राप्त एव सुदा-
रुणः ॥ २३ ॥ तद्गमिष्यामि मन्वेऽस्य सहादित्वा तपोवन ।
उभौ तौ वारगिष्यामि दैनं सम्नदते यदि ॥ २४ ॥ बृहस्पतिस्तु

नीचेको मुख करके चिन्ता करनेके बाद उत्तर दिया, कि- १८
हे शक्र ! अब तू अपने पुत्रको साथमें लेकर श्रीकृष्णसे युद्धकर
जो बात उचित होगी तैसा मैं करलूँगा ॥ १९ ॥ इसप्रकार कह
कर बृहस्पतिजी क्षीर समुद्रको चले गए और महात्मा कश्यपसे
यह सब बात कही ॥ २० ॥ इसबातको सुनकर कश्यपने क्रुद्ध
होकर बृहस्पतिसे कहा, कि-यह ऐसा ही होनेवाला था इसमें
कोई सन्देह नहीं है ॥ २१ ॥ महर्षि देवशर्माकी उमकेही सगान
(शुद्ध) भार्या थी उसको इन्द्रने चाहा था उन मुनिके अपध्यान
का दोष इन्द्रके ऊपर पड़रहा है (अर्थात् इन्द्रने गौतम गोत्री
देवशर्माकी अहयगा नामवाली स्त्रीकी अन्यायसे इच्छा की थी
तब उन मुनिने इन्द्रको शाप दिया था, कि-तू मनुष्यको कुछ
नहीं समझता है इस लिये तेरे ऊपर मनुष्यसेही बड़ा भारी भय
पड़ेगा) ॥ २२ ॥ हे मुने ! इस दोषको शान्तिके लिये मैंने प्रब्रमं
रहनेका व्रत आरम्भ किया था निरभी वह दारुण शाप फलने
ही लगा २३ हे तपोवन ! अब मैं अदितियों साथ लेकर तहाँ
मन्वस्य वननेके लिये जाता हूँ याद मारव्य कहेगा अर्थात् प्रारब्ध

धर्मात्मा मारीचमिदमत्ररीत् । प्राप्तकालं त्वया तत्र भवितव्यं
 तपोधन ॥२५॥ तथेति कश्यपश्चोक्त्वा संवस्थाप्य बृहस्पतिम् ।
 जगामार्चयितुं देवं रुद्रं भूतगणेश्वरम् ॥२६॥ तत्र सौम्यं महा-
 त्मानमानर्च्य वृषभध्वजम् । वरार्थी कश्यपो धीमानदित्या सहितः
 प्रभुः ॥२७॥ तृष्ठा च तपोशानं मारीचः कश्यपस्तदा । वेदोक्तैः
 स्मृतैश्चैव स्तवैः स्तुत्यं जगद्गुरुम् ॥ २८ ॥ कश्यप उवाच ।
 उरुकर्मं विश्वकर्माणशीलं जगत्स्रष्टार धर्मदृश्यं वरेशम् । तं सर्वं

अनुकूल होगा तो मैं उन दोनोंको शान्त करसकूंगा २४ उस समय
 धर्मात्मा बृहस्पतिने कश्यपजीसे यह बात कही, कि—हे तपोधन !
 समय आनेपर आप तहाँ (अवश्य ही) प्रत्यक्ष कश्यपने 'तथास्तु' कह
 करके बृहस्पतिजीको विदा कर दिया और अपने आप भूतगणोंके
 ईश्वर भगवान् रुद्रकी पूजा करनेके लिये चले २६ तहाँ (कैलास) पर
 जाकर वर चाहने वाले बुद्धिमान् प्रभु कश्यपने अदितिके साथ
 वृषभध्वज महात्मा शंकरकी और उमाकी पूजाकी २७ वे मारीचिपुत्र
 कश्यप वेदमें कहे हुए और अपने बनाए हुए स्तोत्रोंसे जगद्गुरु
 शंकरकी स्तुति करने लगे २८ कश्यपने कहा, कि—मैं उरुकर्म विश्व-
 कर्मा ईश जगत्के रचनेवाले धर्मसे दीखने वाले श्रेष्ठ पुरुषोंके स्वामी
 सर्वात्मक धृतिधारियोंके अधिष्ठानरूप आप दिव्य विश्वेश्वरको
 प्रणाम करता हूँ (उरुकर्मका यह अर्थ है जिनका पैर रखना
 त्रिलोकीको भी नाप सकता है इतना बड़ा होता है ऐसे भगवान्
 शिवको मैं प्रणाम करता हूँ परन्तु वागनावतार में विष्णुने ऐसा
 किया था रुद्रने ऐसा नहीं किया था इस शंकाका उत्तर यह है,
 कि—विष्णु और शिवमें अभेद है वे विम्ब और प्रतिविम्बरूप है
 शास्त्रमें लिखा है कि—“ एकस्यैव विश्वेश्वरस्य सर्वाणीमानि
 नामानि ।” अर्थात् यह सब नाम एक विश्वेश्वरके ही हैं । वह
 धृतिमद्भाग है इसका विशेष विवरण इस प्रकार है, कि—“धृत्वा

त्वां धृतिमद्भ्याम दिशं विश्वेश्वरं भगवतं नमस्ये ॥ २६ ॥-यो
 देवानामपिपः पापहर्ता तं नं विश्वं येन जगन्मयत्वात् । आपो
 गर्भं यस्य शुभा धरिष्यो विश्वेश्वरं तं शरणं पपद्ये ॥ ३० ॥
 शालावृकान्यो यतिरूपो गिजघ्ने दत्तानिन्द्रेण प्रणुदो हितानाम्
 विरुपाक्षं सुदर्शनं पुण्ययोगिं विश्वेश्वरं शरणं यामि मूर्ध्ना ३१
 भुंक्ते य एको विभुर्जगता विशागमं धाम्नां धाम सुकृतित्वान्न

यया धारयते मनः पाण्डेन्द्रियक्रियाः । योगेनाद्यभिचारिण्या धृतिः
 सा पार्थ सात्त्विकी ।' ऐसी सात्त्विक बुद्धिकी धारण करने वालों
 के धाम अर्थात् स्वप्रकाश चैतन्यरूप अविष्टानात्मक शिवको में
 प्रणाम करता हूँ) ॥ २६ ॥ जो देवनाओंके स्वामी है पापोंके
 हर्ता है जगन्मय होनेके कारण विश्वकी प्रत्येकमूर्तिमें विराजमान
 शिवको में प्रणाम करता हूँ (" आपः पुरुषवनसो भवन्ति-आप
 अर्थात् जल पुरुषवाचक हैं इसलिये उनका कार्य आप अर्थात्
 शरीर है) वर आप शरीर जिनके प्रतिबिम्ब चैतन्यरूप गर्भको
 अर्थात् जीवको धारण करते हैं उन विश्वेश्वरकी में शरण लेता
 हूँ ॥ ३० ॥ जो इन्द्रके प्रेरित भेड़ियोंको यतिका रूप धारण कर
 अर्थात् गितेन्द्रिय होकर मारडालते हैं और जो (शम दम आदि-
 रूप) दिनकारी पित्रोंको प्रेरित करने वाले हैं उन विरुपाक्ष सुदर्-
 शन पुण्ययोगि विश्वेश्वरको में मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ
 (धृतिमें लिखा है, कि- 'अकन्मुग्वान्यनीन् शालावृकेभ्यः पपच्छम् ।'
 अर्थात् वेदान्त विचारहीन अग्निनेन्द्रिय पुरुषको यतिका रूप
 धारण करनेवाला इन्द्र इन्द्रियरूपी भेड़ियोंसे उसका भक्षण करा-
 देता है उनको यतिरूप बनकर अर्थात् शिवरूप बनकर गिते-
 न्द्रियमारलाटना है) ३१ जो एक जगत्के स्वामी है और
 अग्रविश्वका अर्थात् विद्युद्ग पुरुषका साधन करता है और
 अथवा मूर्ध्ना विश्वका संहार करता है और (चतु मूर्धादि)

धृष्यः । पुण्यात् स मां महसा शाश्वतेन सोमपानां गरीचिपानां
 चरिष्ठः ॥ ३२ ॥ अथर्वाणं सुशिरसं भूगोनिं कृतिनं वीरं दान-
 वानां च वाधम् । यज्ञे ह्युति यज्ञिणं संस्कृतं वै विश्वेश्वरं शरणं
 यामि देवम् ॥ ३३ ॥ जगज्जालं विततं गत्र विश्वं विश्वात्मानं
 प्रीतिदेवं गतानाम् । य ऊर्ध्वगं रथमास्थाय याति विश्वेश्वरः
 सुमना येऽस्तु नित्यम् ॥ ३४ ॥ अन्तश्चरं रोचनं चारुशालं महा-
 वलं धर्मनेतारमीडयम् । सहस्रनेत्रं शतवर्तमानगुणं महादेवं विश्व-
 सृजं नगस्ये ॥ ३५ ॥ शुचि योगं शसनं शांतपापं शर्वं शम्भुं
 शंकरं भूतनाथम् । धुरंधरं गोपतिं चन्द्रचिह्नं हृषीराणामपनं यामि
 तेजोका धाम है अर्थात् गुरु शरु है और सुकृत होनेसे अधृष्य
 अर्थात् ब्रह्म होनेसे अभयरू। है वह सोमपों (कर्मठों) में और
 गरीचिों का चन्द्रमाकी किरणोंका पान मात्र करके रहने वाले)
 महामुनिगोंमें श्रेष्ठ हैं अर्थात् ब्रह्मलोक आदि स्थानोंको देने
 वाले हैं वह मुझे अपने शाश्वत तेजसे पुष्ट करें ॥ ३२ ॥ मैं
 अथर्ववेदप्रतिपाद्य (पञ्चकोपरूप) शिरवाले जगत्के कारण
 पुण्यवात्मा वीर और दानवोंके वाधक यज्ञमें आहुति पाने वाले
 संस्कृत हविरूप विश्वेश्वर महादेवकी शरण लेना हूँ ॥ ३३ ॥
 जिस (अभिष्ठान) में जगत्स्वपी जाल फैला हुआ है वह विश्व-
 स्वरूप विश्वात्मा शरणमें आनेवालोंको प्रीति देनेवाले और
 ऊर्ध्वगामी रथपर बैठा होने वाले विश्वेश्वर मेरे लिये सदा सुख
 देने वाले हों ॥ ३४ ॥ अन्तःकरणमें फिरने वाले रोचन (चिन्मय)
 (वेदरूपी) रमणीय शाखा वाले महाबली धर्मके नेता पूजनीय
 सहस्र नेत्रोंवाले सैंकड़ों प्रकारके कर्मपार्शसे फल देनेवाले उग्र
 विश्वसृष्टा महादेवजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३५ ॥ शुचि
 (असंग) योग (योगसे जाननेमें आने वाले) शसन (वेदोंसे
 प्रशंसित) नष्टपाप शर्व (सबका संहार करने वाले) शम्भु

मूर्ध्ना ॥ ३६ ॥ आशुः शिशानं वृषभं रोक्वाणं कृतं धर्मं वितथं
 चाशुशेषम् । वसुन्धरं समृजीकं समं त्वां धृतव्रतं शूलधरं प्रपद्ये ३७
 अनन्तवीर्यं धृतकर्माणामाद्यं यज्ञाशेषं यजतां चाभियाज्यम् । हवि-
 र्भुजं भुवनानां सदैवं ज्येष्ठं द्विजं धर्मभृतांप्रपद्ये ॥ ३८ ॥ परं
 गुणोभ्यः पृश्निगर्भस्वरूपं यशः शृंगं व्यूहनं कान्तरूपम् । शुद्धा-
 त्मानं पुरुषं सत्यधामं संमोहनं दुष्कृतिनां नमस्ये ॥ ३९ ॥
 युक्तोकारं स्वशिरसं चारुर्कर्म दृढव्रतं दृढधन्वानमाजम् । शूरं
 (सुखके हेतु) शंकर (सुख करने वाले) भूतोंके स्वामी(जगत्के
 बोभेको धारण करने वाले) इन्द्रियोंके स्वामी चन्द्रमाको
 मुकुटमें धारण करने वाले और काल आदिक द्विसकोंके आश्रय
 महादेवजीको मैं गस्तकसे प्रणाम करता हूँ ॥ ३६ ॥ शीघ्र फल
 देने वाले (रागादिदोषोंको) घिसने वाले (शमादि गुणोंके)
 बरसाने वाले (गातः सवन आदि क्रमसे) गर्जना करनेवाले,
 कृत अनुष्ठित, धर्म-यज्ञादिरूप पहले वचे हुए पुण्यके फलको
 शीघ्र ही भुगवा कर नष्ट करने वाले इसी लिये निष्फलपाय
 वसु कर्मज पुण्य धारण करने वाले सत्वशुद्धिपूर्वक उपासनीय
 सम-बुद्धिकी अवधिरूप अर्थात् सर्वस्वरूप व्रत धारण करने
 वाले शूलधारी महादेवजीकी मैं शरण लेता हूँ ॥ ३७ ॥ अनन्त-
 वीर्य धृतकर्म आद्य यज्ञाशेष पुरुषार्थरूप पूजा करनेवालोंके लिये
 पूजनीय भवनोंकी हविके भोक्ता सर्वदा ज्येष्ठ धर्मधारियोंके बीच
 मैं शिवकी मैं शरण लेता हूँ ॥ ३८ ॥ गुणोंसे पर-इन्द्रियादिकों
 से पर त्रिष्णुस्वरूप यशःशृङ्ग जगत्को रमणीयतासे न्यूहित
 करने वाले मनोहर रूपवाले शुद्धात्मा पुरुष सत्यधाम (अवा-
 धित चैतन्यस्वरूप) दुष्कर्मियोंको मोहमें डालनेवाले शिवको मैं
 प्रणाम करता हूँ ॥ ३९ ॥ योगियोंके लिये ओंकार अर्थात् सर्व-
 प्रपञ्चरूप, ओंकारके शिरकी अर्धमात्रारूप, सुन्दर कर्म वाले

वेत्तारं धनुषोस्त्रातिरेकं पतिं पशुनां शमनं नमस्ये ॥४०॥ एको-
 रातिश्चैव भूतं भविष्यं सर्वातिथिर्गो हि जुपत्यरिध्नः । अरिन्दुदो
 ऽनुत्तमः सम्बिभागी विभाजको मां भगवान् पातु देवः ॥४१॥
 य एको यानि जगतां विश्वमीशो य एकोदान्मरुतां प्राणमग्रम् ।
 येनानुशंस्याच्छाश्वतं सामजुष्टं स मां जुष्यात् सकृत्तिश्रेयसेऽद्य४२
 ब्रह्माष्टजद्यो भुवनेत्तपोत्तमं तप्तो विद्वान् ब्राह्मणः पाद्गुणस्य ।
 सृष्टा रसं व्याहृतिस्थं समग्रं सगायादिह बहुरूपो रिहांगैः ४३
 व्यंजनेाग्निनाथ विद्वान् समग्रः सृष्टिः शम्भु प्राणदः कृत्ति-

दृढव्रतधारी दृढधनुषधारी क्षेपणक्रियारूप, शूर, धनुषके वेत्ता
 सब अस्त्रोंसे अधिक (अज्ञानी जीवरूप) पशुओंके संहारक
 शिवके मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४० ॥ एक अर्थःतु अद्वितीय,
 राति-गित्र भूत और भविष्यरूप और जो कामादि शत्रुओंके
 नाश करनेवाले सर्वातिथि अर्थ तु अग्निस्वरूपसे (इविका)
 भक्षण करते है, अरिन्दुद (रत्नोद्घन) है विभाजका सेवन करते
 हैं और विभाजक हैं वह देव मेरी रक्षा करे ॥४१॥ जो जगत्का
 ईश एक होने पर भी विश्वमें (जलमें चन्द्रपाकी सपान) प्रवेश
 करता है और जो महोंके श्रेष्ठ प्राण देता है अर्थात्
 प्राणोंका भी प्राण है जिसने दगालु होनेके कारण सागके साथ
 शाश्वती मित्रताकी है वह महादेव आज पुण्यपात्माओंका
 कल्याण करनेके लिये मुझसे प्रीति करें ॥४२॥ ब्रह्माने भुवनों
 में उत्तम सत्पलोकको रचा है क्योंकि-वह ब्राह्मण और ब्रह्म-
 वेत्ता हैं और वह विद्वान् ऐश्वर्य ज्ञान यश श्री वैराग्य और धर्मसे
 तप्त है अर्थात् पूर्ण है पूर्ण होनेसे ही उन्होंने व्याहृतिस्वरूपको
 उसके अर्थभूत सारे प्रपञ्चका रचकर फिर उसमें ही प्रवेश किया
 था (ऐसे ब्रह्मस्वरूप आप ही है) आप अपने (सर्वज्ञता आदि)
 अज्ञोंसे अनेक रूपोंको धारण करते हैं ॥ ४३ ॥ आप व्यञ्जन

त्रासाः । रसो ध्रुवः पत्रमानस्य भर्ता सपत्नीशः शंकरः सार-
धाता ॥ ४४ ॥ ऽयम्बकं पुष्टिदं वो वृत्राणं धर्मं विपाणां वरदं
यज्वनां च । वरात् वरं रणजेतारभीशं देवं देवानां शरणं यामि
रुद्रम् ॥ ४५ ॥ आस्यं देवानांमंतकं दुष्कृतीनां त्रिवृत् सोमं वृत्तहं
कर्मसाक्ष्यम् । भूतायनं भूतपतिं गुणज्ञं गुणाकारं शरणं यामि
रुद्रम् ॥ ४६ ॥ अनुद्वृत्तं यज्ञकर्तारमन्तं मध्यं चाद्यं यज्ञकृतां
साम्परूपम् । वेदव्रतेषु बहुधा गीतगीशमणि त्रिविष्टपं शरणं
यामि रुद्रम् ॥ ४७ ॥ महाजिनं व्रतिनं मेखलालं सुतोपणं क्रोध-

है अर्थात् अतीन्द्रिय इन्द्रिय आदि विपर्योके जानने वाले हैं,
अजन अर्थात् अगन्मा है विद्वान् है समग्र अर्थात् दृष्टि दृश्य
और आत्मा हैं, स्पृशि-विपर्योका स्पर्श करने वाले, शम्भु-उसके
स्पर्श शब्द के भोक्ता, प्राणद-जीवन देनेवाले कृत्तिवासा चर्मको
धारण करने वाले, ध्रुवरस-परमानन्दस्वरूप पत्रमानके अर्थात्
वायुके भर्ता-प्राणपति, सपत्नीश पत्नी और स्वामीके साथ,
शंकर-उसके फलको देने वाले और बोधसे उत्पन्न होने वाले
हैं ॥ ४४ ॥ त्रिनेत्र (ब्राह्मणोंको) पुष्टि देने वाले धर्म-
वक्ता, यज्ञ करने वाले और विर्षोंको वरदान देनेवाले, परमश्रेष्ठ,
रणमें जीवने वाले, ईश और देवदेव रुद्रही मैं शरण लेता हूँ
देन । ओंके (अग्निस्वरूप) मुख, पापियोंके यमराज, त्रिवृत्
(स्तोत्र वाले) सोम (यागरूप संसाररूपी) वृत्तका नाश करने
वाले, कर्मके साक्षी, भूर्तोंके (लग) स्थान, भूर्तोंके स्वामी,
गुणोंको जानने वाले और गुणस्वरूप विष्णुकी मैं शरण लेता
हूँ ४६ अनुद्वृत् । यज्ञकर्ता यज्ञ करने वालोंमें आदि मध्य और
अन्त (स्वरूप) गकृति स्वरूप, वेदोक्त व्रतोंमें अनेक देवतारूपसे
माए हुए, स्वर्गव्याप्य निगन्ता शिवको मैं प्रणाम करता हूँ ४७
हस्तीका चर्म धारण करने वाले, व्रतधारी, मेखलासे अलंकृत

धनं विपापम् । भूतं क्षेत्रज्ञं गुणिनं वा कपर्दिनं नतोस्पीशं वन्दनं
 वन्दनानाम् ॥४८॥ देवं देवानां पावनं पावनानां कृतिं कृतीनां
 महतो महातम् । शनःत्पानं संस्तुतं गोपतीनां पतिं देवं शरणं
 यागि रुद्रम् ॥ ४९ ॥ अन्तश्चरं पुरुषं गुह्यसंज्ञं पभास्वंतं पणवं
 विपदीपम् । हेतुं परं परमस्यान्नरस्य शुभ देवं गुणिनं सन्न-
 तोस्मि ॥ ५० ॥ प्रभूतिरूपयोर्ना प्रसूनश्च सूक्ष्मः पृथग्भूतेभ्यो न
 पृथक्चैकभूतः । स्वयं भूतः पातु मां सर्वसादः प्रदः स्वादः

अल्प आवास (परिश्रम) से ही प्रसन्न होने वाले, क्रोमके
 स्वामी, पापरहित, भूत (नित्यसिद्ध) अत एव क्षेत्रज्ञ (देव
 इन्द्रिय अहंकार आदिके प्रकाशक, गुणी, कपर्दी और वन्दनीयों
 के भी वन्दनीय शिवको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४८ ॥ देवताओं
 के देव, पवित्रोंको भी पवित्र करने वाले कृति अर्थात् यज्ञोंके भी
 यज्ञ-पूजनीयोंके भी पूजा वड़ोंसे भी बड़े, अनन्त मूर्तिवाले,
 इन्द्रियाधिष्ठातृ देवताओंसे संस्तुत और इन्द्रियोंके स्वामी रुद्रदेव
 की मैं शरण लेता हूँ ४९ अन्तःकरणमें फिरने वाले पुरुष, गुह्य
 चिन्हवाले, स्वमकाश, ओंकार विपदीप (ज्योति भी सूर्य आदि
 ज्योतिको भीतरसे चञ्चु आदिके द्वारा भासित करती है ऐसे
 विगतमदीप होनेके कारण, विपदीप), जीव जागनाले मति-
 विम्बके विम्बभूतहेतु गुणवान् शुभदेवको मैं प्रणाम करता हूँ ५०
 दोनों अर्थात् जगत् और जीवके उत्पत्तिस्थान और कारणातीत
 होनेसे उत्पत्तिस्थान रहित इसी लिये सूक्ष्म (दुर्ग्रह्य) भूतोंसे
 पृथक्, और भूतोंसे पृथक् न होकर उनके अधिष्ठानभूत एक
 (सर्वजगत्के अधिष्ठाकरण होनेसे) स्वयंभू सर्वसाद (जिस
 में सबके सब लीन हो जाते हैं प्रद-श्रेष्ठ वस्तुओंको देने वाले,
 स्वाद-रुचि (आम्र आदिकोंमें माधुर्यरूपसे यह ही वर्तमान रहते
 हैं) सम्प्रद-हर्ष, और रत्न अर्थात् रमणीय शिव मेरी रत्ना

सम्मदः पातु रत्नम् ॥५१॥ आसन्नः सन्नतरः साधनानां श्रद्धा-
वतां श्राद्धवृत्तिप्रणोता । पतिर्गणानां महतां सत्कृतीनां पाया-
न्मेषः पूरुषः षड्गुणानाम् ॥५२॥ अन्तर्बहिर्दृष्टिजिनानां निहन्ता
स्वयं कर्ता भूतभावी विकुर्वन् । धृतायुवः सुकृतिनामुत्तमौजाः
प्रणुश्यान्मे वृजिनं देवदेवः ॥ ५३ ॥ येनोद्भूतास्त्रैः पुरमायिनो
वै दम्भा घोरेण वितथाताः शरेण । महत् कुर्वन्तो वृजिनं देवतानां
ज्यायानीशः पातु विश्वोदधाता ॥५४॥ भागीयसां भागमतोन्तं
गिच्छन् मखो दातो येन कृतोन्मयवत् । विद्वान् यज्ञस्यादिर-

करं ॥ ५१ ॥ अन्तर्यामी होनेके कारण आसन्न अर्थात् निकट
रहनेवाले, साधन वालोंके लिये अनिनिकट अर्थात् अगाधत, और
श्रद्धावालोंको श्रद्धासे ग्रहणकी जाने वाले महानाश्रयवृत्ति अहं
ब्रह्मास्मिन्के ज्ञानको देनेवाले परम पुण्यात्मा गणोंके स्वामी और
(सर्वज्ञत्वादि) द्वः गुणोंके पूर्ण करने वाले यह शिव मेरी रक्षा
करें ॥ ५२ ॥ भीतरी बाहरी आधिभ्याधियोंके वां काम क्लेश
आदिके नाशक स्वयंकर्ता अर्थात् निमित्तकारणरूप, भूतरूपसे
परिणमन पानेके स्वभाव वाले अर्थात् उपादान कारणरूप,
क्रोधादिकका आविष्कार करने वाले, आयुषोंको धारण करने
वाले उत्तम तेजस्वी देवदेव पुण्यात्माओंके और मेरे पापोंको
नष्ट करें ॥ ५३ ॥ देवताओंका बड़ाभारी अपराध करनेवाले
पुरमें बैठ कर माया करने वाले राजाओंको अस्त्रोंके द्वारा जिन
घोर शिवगीने जलाया है और शस्त्रके द्वारा नगरके भस्म होने
से शस्त्र पूवन होनेके कारण जिन्होंने राजाओंका मरणविफल कर
दिया है वह सबसे बड़े ईश सारे जलके अर्थात् सब कारणोंमें
प्रधान कारणोंके धारक शिव मेरी रक्षा करें ॥ ५४ ॥ जिन्होंने
अधिकभाग चाहनेवाले, देवताओंके भाग को लुप्त करना चाहा
या, और दत्तात्रापनिष्ठा यज्ञ द्विन्न होने पर जिनकी शरणमें

धर्मः सदेवः पापदोषो मां दत्तवशाद्भुतः । ५५ ॥ अन्यो
 धन्यः संस्कृतश्चोत्तमश्च जगत् सृष्ट्वा योऽति सर्वातिगुह्यः । स मां
 मुखममुखे पातु नित्यं विचिन्वानः प्रथमः षड्गुणानाम् ॥ ५६ ॥
 गुणत्रयान्य यस्य देवस्य नित्यं सत्त्वोद्रेको यस्यमावात् प्रभूतः ।
 गोप्ता गोपवृणां सन्नदो दुष्कृतीनामाद्यो विश्वस्य वाधमानस्य
 क्रुद्धः ॥ ५७ ॥ धाम्नो यस्य हरिरग्रांस्य विश्वो ब्रह्मा पुत्रैः
 सहितश्च द्विजाश्च । पराभूता भवने यस्य सोमो जुपस्त्वेपः श्रेयसे

आया था वह यज्ञके आदि और अन्त तथा दत्तके यज्ञका अन्त
 करनेवाले ईश मेरी रक्षा करें ५५ जो जगत्की रक्षा करके उसका
 भक्षण करता है, अति गुह्य ब्रह्मरूपी ईश्वरसे अन्य हैं,
 (पालन कर्ता विष्णुस्वरूप) धन्य है शम आदि संस्कार होने
 के कारण उत्तम हैं और जिसमें मुखसे उत्पन्न होने वाले
 (इन्द्र और अग्नि जिसमें मुख्य हैं ऐसे यज्ञमें अपने अभेदसे
 सर्वत्र ईश्वरको देखने वाले ऐश्वर्य आदि षड्गुणोंके मुख्य
 आश्रय मेरी (और मेरी सन्तानकी रक्षा करें) ५६ जिस देवमें
 गुणत्रिकालपना सर्वदा रहता है अर्थात् जिनमें कार्यकी उत्पत्ति
 स्थिति और संहारका समय नित्य रहना है अर्थात् जिनमें प्रवाह-
 नित्यतासे उत्पत्ति आदि हागी रहनी है (इससे शिवका ब्रह्मकर्म
 सूचित किया है) और जिनमें सत्त्वोद्रेक अर्थात् सत्त्वाधिक है
 और वह सत्त्वोद्रेक जिन विष्णुरूपके स्वरूपसे प्रकट हुआ है
 उन इन्द्रियोंके रक्तक (सत्त्वमय होनेसे कृष्ण इन्द्रियोंके रक्तक
 हैं, और कालरुद्ररूपसे) पापियोंको नाश देने वाले हैं, विष्णुके
 आश्रय अर्थात् गाता पिताकी सगान पालक हैं और पीड़ियोंको
 क्रुद्ध होकर नष्ट कर डालते हैं ५७ जिसके तेजोमालके विष्णु
 अग्र अर्थात् सूक्ष्मरूप हैं, और विश्व अर्थात् विराट ब्रह्मा दिग्गुण
 गर्भ अपने सन्वादिक् पुत्रोंके साथ और मरुति आदि सृष्टियों

साधु गोप्ता ॥ ५८ ॥ यस्माद् भूतानां भूतेरन्तोथ मध्यं घृतिर्धृति-
र्यश्च गुहाश्रुतिश्च । गुहाभिभूतस्य पुरुषेश्वरस्य गदात्मनः समृड-
वेद्यस्य तस्य ॥ ५९ ॥ गन्धिलंगांक उग्रम्बकः सर्वमीशो भगलिगांकं
यद्भ्युमा सर्वधात्री । नान्यतृतीय जगतीहास्ति किञ्चिन्महादेवात्
सर्वेश्वरवरोसौ ॥ ६० ॥ इति संस्तूयमानस्तु भगवान् वृषभ-
ध्वजः । दर्शयामास धर्मात्मा करयपं धर्मधृग्वरम् ॥ ६१ ॥ उवाच
चैनं देवेशः मसन्नेनातिरात्मना । येन संस्तौपि कार्येण त्वं तज्जाने
प्रजापते ॥ ६२ ॥ इन्द्रोपेद्रौ महान्मानौ देवौ प्रकृतिमेष्यतः ।
पारिजातं तु धर्मात्मा नपिष्यति जनार्दनः ॥ ६३ ॥ अप या ॥

साथ जिसके भवनमें प्रवेश नहीं करसकते हैं वह सज्जनोंके
रक्तक उमासहित महादेवजी मेरा कन्याण करनके लिये मृक्त
पर प्रसन्न हैं ५८ जिनसे आकाश आदि भूतोंकी उत्पत्ति होती
है और जिनमें आकाश आदि भूत लीन होजाते हैं और जिनमें
आकाश आदि स्थित रहते हैं और एक शिवको ही जानना
चाहने वाले पुरुष पर जो धृति आदिरूप अनुग्रह करते हैं और
जिस गुहामें रहने वाले पुरुषेश्वरकी कृपासे गुहा वस्तुका भ्रवण
होता है ॥ ५९ ॥ उग्रम्बक सबके ईश शिव लिङ्गांकित हैं और
सबकी धारण करने वाली उमा भगलिङ्गांकित हैं और उम
जगत्में तीसरे लिङ्ग बाला और कोई नहीं है इस लिये महादेव
सबोंके ईश्वर हैं ॥ ६० ॥ इसप्रकार भगवान् वृषभध्वजकी स्तुति
करने पर उन्होंने धर्मपारिगांमें श्रेष्ठ धर्मात्मा करयपको अपना
दर्शन दिया ६१ उस समय देवेश शिवने प्रसन्न मनसे उनसे
कहा, कृ-हे प्रजापते करयप ! तुम जिस कारण मेरी स्तुति
कर रहे हो उस वृत्तके मैं जानता हूँ ॥ ६१ ॥ महात्मा इन्द्र और
उपेन्द्र प्रकृतिके प्राप्त होजावेगे परन्तु जनार्दन पारिजात वृत्तके
लेजावेगे ६३ देवशर्मा नामक मुनिने इन्द्रका अग्रध्यान किया

महेन्द्रो हि मुनिना देवशर्मणा । अस्याकान्तत् पुरा भार्या तपो
दीप्तस्य कश्यप ॥ ६४ ॥ गम्यतां तत्र धर्मज्ञ दान्ताण्डिया सह
त्वया । अदित्या शक्र सदनं श्रेयस्ते पुत्रयोर्ब्रुवम् ॥ ६५ ॥
इति हरचननं निशम्य विद्वान् कमलभवात्मजसूदुरप्रमेयः ।
त्रिदशगणगुरुं प्रणम्य रुद्रं मुदितमनाः सुमर्गाकसं जगाम ६६
इति श्रीमहाभारते गिलेपु हरिवंशे विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे
कश्यपकृतकद्रुतोत्रं नाम द्विसप्ततमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥

देशम्पायन उवाच । अथ विष्णुर्महातेजा मुहूर्ताभ्युदिते, रत्नौ ।
मृगयाव्यगदेशेन ययौ रैवतकं गिरिम् ॥ १ ॥ आरोग्यैकरथे
देवः सात्यकिं नरपुङ्गवम् । मद्युम्नमनुगच्छेति प्रोत्त्वा कुरुकुलो-
द्बृह ॥ २ ॥ रैवतं च गिरि देवो गत्वा दारुणमब्रवीत् । मदीयं
रथमेनं स्वं ग्रहायेर्हिव दारुक ॥ ३ ॥ प्रतिपालय मां सौम्य दिनार्धं

था हे कश्यप ! इतने पहिले तपोदीप्त कश्यपकी भार्याको चाहा
था ६४ हे धर्मज्ञ ! अब तुम दान्त्याणी अदितिके साथ लेकर
शक्रभवनको जाइये तहाँ जाने पर आपके पुत्रोंका कल्याण
अवश्य होगा ॥ ६५ ॥ ब्रह्माजीके पुत्र प्रसन्न मन वाले क्षममेय
कश्यपजी शिवजीके वचनके सुनकर उन देवताओंके गणोंके
स्वामीको प्रणाम कर देवताओंके स्थानको चले गए ॥ ६६ ॥
बृहत्तरवों अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥

देशम्पायनजीने कहा, कि तदनन्तर महातेजस्वी विष्णु
सूर्यके उदित होने पर शिवजीके वहाँसे रैवतक पर्वतको चले १
उन्होंने नरपुङ्गव सात्यकिको भी एक तरफ बैठा लिया था
और मद्युम्नसे भी अपने पीछे २ चलनेके लिये कहा था ॥ ॥
उन देवग रैवतगिरि पर पहुँच कर दारुकसे कहा, कि—हे दारुक !
तुम मेरे रथको यहाँ पा डे रहो ३ और हे सौम्य ! आधे दिन
तक मेरी बात देखता हुआ घोंड़ीया रोके रह हे मृतसत्तम ! मैं

(६२८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [त्रिसप्ततितम

वारगन् हरीन् । रथेनैव प्रवेष्टाहं द्वारकां मृतसत्तम ॥४॥ इति
सन्दिश्य भगवानाकरोह जयोद्यतः । तार्क्ष्यं स सात्यकी धीमान-
गमेवपराक्रमः ॥ ५ ॥ पृथग्रथेन कौरव्य प्रद्युम्नः शत्रुसूदनः ।
आकाशगामिना राजन् पृष्ठतः कृष्णमन्वयात् ॥ ६ ॥ निमेषां
तरमात्रेण नन्दनं काननं हरिः । देवोद्यानं ययौ धीमान् पारि-
जातजिहीर्षया ॥७॥ ददर्श तत्र भगवान् देवयोधान् दुरासदान् ।
नानायुधधरान् वीरान्नन्दनस्थानधोत्तजः ॥ ८ ॥ तेषां सम्प-
त्पतामेव पारिजातं महाबलः । उत्पाद्यारोपयामास परिजातं
सतां गतिः ॥ ९ ॥ गरुडं पक्षिराजानमयत्नेनैव भारत । उप-
स्थितो निग्रहवान् पारिजातः स केशवम् ॥ १० ॥ सांख्यतो
वामुदेवेन पारिजातश्च भारत । उक्तश्च वृत्त गा मैस्त्वं केशवेन
महात्मना ॥ ११ ॥ तं प्रस्थितं तरुं दृष्ट्वा पारिजातमधोत्तजः ।

रथमें बैठ कर ही द्वारकामें घुम्ना ४ इस प्रकार संदेश देनेके
उपगन्त जय करनेको उद्यत हुए भगवान् गरुड़जी पर चढ़
गए और उन अगमेव पराक्रमीने सात्यकिको भी अपने रथ
पर चढ़ा लिया ॥ ५ ॥ हे कुरुवंशी राजन् ! तदनन्तर शत्रुसूदन
प्रद्युम्न भी एक आकाशगामी रथमें बैठकर श्रीकृष्णके पीछे २
चला ६ थोड़े ही समयमें बुद्धिमान् हरि पारिजातको हरनेकी
इच्छासे देवताओंके उद्यान नन्दन वनमें पहुँच गए ॥ ७ ॥
तहाँ पर अयोत्तज भगवान्ने नन्दनवनमें अनेक प्रकारका
आयुध धारण करनेवाले दुरासद देवयोधाओंको खड़े हुए
देखा ॥ ८ ॥ हे भरतवंशी राजन् ! सज्जनोंकी गति महाबली
श्रीकृष्णने उनके सामने ही पारिजातको उखाड़ कर पक्षिराज
गरुड़ पर अनायास ही धर दिया उस समय पारिजात वृत्त
शरीर धारण कर श्रीकृष्णके सामने आगया ॥ ९-१० ॥
हे भरतवंशी राजन् ! तब वामुदेवपुत्र महात्मा केशवने पारिजात

अमरावती पुरी श्रेष्ठां ततश्चक्रे मदन्तिणाम् । १२ ॥ ते तु नन्दन-
 गोप्ताः पारिजातो द्रुपोत्तमः । द्विप्राति महन्द्राय गत्वा नृप
 तशसिरे ॥ १३ ॥ अथैरावतगारुह्य निर्गमौ पाण्डशासनः । जग-
 तेन रथस्थेन पृष्ठतोऽनुगतः प्रभुः ॥ १४ ॥ पूर्वमभ्यागतं द्वारं केशवं
 शत्रुनाशनम् । दृष्ट्वाशच पट्टत भोः स्मिदं मधुसूदन ॥ १५ ॥
 एष्वयं गरुडस्थोऽथ केशवः शक्रगत्रवीत् । बभ्रवास्ते पुण्यकार्याय
 पीयतेऽयं वरद्रुमः ॥ १६ ॥ तमुवाच ततः शक्रो मामव पुष्करे-
 षण् । अयोधगित्वा न तर्हर्नमित्वास्तवयाऽच्युत ॥ १७ ॥
 हरहर महावाहो मथमं-मयि वेशव । प्रतिज्ञा सफला तेस्तु
 क्त्वा कौमोदकीं मणि ॥ १८ ॥ तैतः कृष्णः शरैस्तीक्ष्णैर्देव-
 । जगजोत्तमम् । विभेदाशनिसंकाशैः सहसन्निव भारत ॥ १९ ॥

। दादस देते हुए कहा, कि हे वृत्त ! तू डर मत ११ श्रीकृष्ण
 पारिजातको जातेहुए देखकर श्रेष्ठ नगरी अमरावतीकी मद-
 तया करने लगे ॥ १२ ॥ उपर नन्दनवनकी रक्षा करने वाले
 तर्होने जाकर महन्द्रसे कहा, कि-वृत्तोंमें श्रेष्ठ पारिजात बीना
 रहा है ॥ १३ ॥ तब-तो प्रभु पाण्डशासन ऐरावत पर बैठकर
 जा और उसके पीछे जयन्त भी रथ पर बैठकर चला ॥ १४ ॥
 कृष्ण द्वासे न निकले थे उससे पहले ही इन्द्रने शत्रुनाशन
 भूवसे कहा, कि-हे मधुसूदन ! तुम यह क्या काम कर रहे
 ? १५ उस समय गरुड पर बैठे हुए श्रीकृष्णने इन्द्रसे कहा,
 यह वृत्तश्रेष्ठ आपकी बभूके पुण्यकत्रतके लिये जा रहा है १६
 स समय शकने कहा, कि हे कणलनेत्र ! तुम ऐसा मत करो
 अच्युत ! तुम्हें युद्ध किये बिना इस वृत्तको लेजाना उचित
 ही है ॥ १७ ॥ हे महाभुन वेशव ! तुम पहले मेरे ऊपर महार
 रो और कौमोदकीको छोड़ो अब आपकी प्रतिज्ञा सफल होनी
 । हिये १८ हे भरतवंशी राजन् ! तदन्तर श्रीकृष्ण मुस्कराकर

त्रिव्याध गरुडं वज्रीदिव्यैः शरवरैस्तथा । बाणश्चिच्छेद सहसा
 केशवस्य तरास्वनः ॥ २० ॥ यान् यान् मुपोच देवेन्द्रमूर्ता
 शिच्छेद माधवः । माधवेन प्रयुक्ताश्च निच्छेद बलवृत्रह ॥ २१ ॥
 महेन्द्रस्य च शब्देन धनुषः कुरुान्दन । शार्ङ्गस्य च निगादेन
 मुमुक्षुः स्वर्गवासिनः ॥ २२ ॥ तगोर्वतति संग्रामे गरुडस्थो महा
 बलः । पारिजातं जयन्तोऽथ हर्तुमभ्युद्यतो बली ॥ २३ ॥ प्रद्युम्न-
 मथ कंसघ्नो वारयेति तदाऽन्नवीत् । ततस्तं वारयागास रौक्मि
 णेयः प्रतापवान् ॥ २४ ॥ जयन्तो जयतां श्रेष्ठो रौक्मिण्येय-
 मथेषुभिः । सर्वगात्रेषु विहसन्नाजघान रथे स्थितः ॥ २५ ॥
 रथस्थ एव रथिन कामस्तु कमलेक्षणः । ऐंद्रिमर्भर्दयामास
 वार्यारशीविषोपर्माः ॥ २६ ॥ स सन्निपातस्तुमुलो बभूव कुरु-

देवराजके श्रेष्ठ हाथीका वज्रकी समान तीक्ष्ण बाणोंसे बांधने
 लगे १६ इसी प्रकार वज्र गारी इन्द्र भी दिव्य श्रेष्ठ बाणोंसे गरुड
 जीके घायल करने लगा और फुर्तीले केशवके बाणोंके भी
 सहसा काटने लगा २० देवराज इन्द्र जिन २ बाणोंके छोड़ता
 था उन २ बाणोंके माधव काट डालते थे और बल और वृत्रा-
 मुरका संहार करने वाला इन्द्र भी माधवके छोटे हुए बाणोंके
 काटने लगा २१ हे कुरुनन्दन! इन्द्रके धनुषके शब्दसे और शार्ङ्ग
 धनुषके शब्दसे स्वर्गवासी सुन्न होने लगे २२ जब उन दोनों
 का संग्राम चल रहा था उस समय महाबली जयन्त गरुडके
 पाम जा पारिजातके झीनना चाहने लगा ॥ २३ ॥ उस समय
 कंसके नाशक श्रीकृष्णने प्रद्युम्नसे कहा, कि-इसको हटाओ
 उस समय प्रतापी रुक्मिणी जयन्तके हटाने लगा ॥ २४ ॥
 तदनन्तर जीतने वालोंमें श्रेष्ठ रथमें बैठे हुए जयन्तने मुस्कराकर
 प्रद्युम्नके सारे शरीरमें बाण मारे २५ रथमें बैठा हुआ कमलकी
 समान नेत्रों वाला प्रद्युम्न रथमें बैठे हुए जयन्तके सर्पोंकी

नन्दन । जगन्तस्य च बीरस्य रौक्मिण्योपस्य चोभयोः ॥ २७ ॥
 कृतनिकृतं युद्धे चकतुष्ती महावली । गहेन्द्रोपेन्द्रतनौ
 जगत्सस्त्रभृतां वरौ ॥२८॥ देवारन मुगश्चैव दशुर्विस्मया-
 न्विताः । तं संग्रामं महाघोरं सिद्धारचैव सचारणाः ॥ २९ ॥
 तनसु मवरो नाम देवदूतो महाबलः । पारिजातं पुनर्हर्तुं गियेष
 कुहनन्दन ॥३०॥ सखा स देवराजस्य महास्त्रविदर्दिग । अवभ्यो
 वादानेन ब्रह्मणः कुरुनन्दन ॥ ३१ ॥ ब्राह्मणस्तपसा सिद्धो
 जम्बुद्वीपादिभं गतः । स्वशक्त्या नृप संगतः सखित्वं बल
 घानिना ॥३२॥ तपापन्नं सम्पद्य कृष्णः सात्यकिमब्रवीत् ।
 अस्त्य एव मवरं शरैर्वारय सात्यके ॥ ३३ ॥ न त्वत्र निर्दयं
 बाणा मोक्तव्याः सात्यके त्वया । अस्य ब्राह्मणचापण्यं सोढव्यं

समान बाणोंसे पीड़ा देने लगा २६ हे कुरुनन्दन । वीर जयन्त
 का और रुक्मिणीपुत्रका वह युद्ध तुमुल रीतिसे हुआ ॥ २७ ॥
 जगत्में अस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ गहेन्द्र और उपेन्द्रके वे दोनों महा-
 बली पुत्र युद्धमें एक दूसरेके ऊपर शस्त्रोंका प्रहार करनेलगे २८
 उस महाघोर संग्रामको सिद्ध चारण देवता और मुनि निस्मित
 होकर देखने लगे २९ हे कुरुनन्दन । इसी समय मवर नामक
 महाबली देवदूत पारिजातको फिर छीननेका प्रयत्न करने
 लगा ॥३०॥ हे कुरुनन्दन । वह देवराजका मित्र था अरिदमन
 था और वड़े २ शस्त्रोंको जानने वाला था और ब्रह्माजीके
 वरदानके कारण अवभ्य था ॥३१॥ वह ब्राह्मण तपसिद्ध था
 और हे राजन् ! बलघाती इन्द्रकी मित्रताके कारण जम्बू द्वीपसे
 स्वर्गमें अपनी शक्तिसे ही अ गया था ३२ श्रीकृष्णने उसके
 आता हुआ देखकर सात्यकिके कहा, कि-हे सात्यके ! तू यहाँ
 ही खड़ा रह कर उस मवरका बाणोंसे रोक दे ३३ हे सात्यके !
 तू इसके ऊपर निर्दय होकर बाण न छोड़ना इस ब्राह्मणकी

खलु सर्वथा ॥३०॥ ततः पृष्ट्या रथेपूर्णा, गरुडस्थं द्विजस्तदा ।
आजघान महाबाहो सात्त्विकिं प्रवरो भृशम् ॥ ३५ ॥ शिनेर्नृणां
धनुस्तस्य क्षिपतः सागकान् नृपः । चिच्छेद पुरुषव्याघ्रो बचनं
चेदमब्रवीत् ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणो नाभिहन्तव्यस्तिष्ठ । तमुस्त्रवर्त्मनि
अवध्या यादवानां हि स्वापराधेऽपि हि द्विजाः ॥ ३७ ॥ प्रव-
रस्तु प्रहस्येनमुवाच कुकनन्दन । अलं क्षातिभ नृणां शूर युज्य
सर्वात्मना रणे ॥ ३८ ॥ जामदग्न्यस्य गमस्य शिष्योऽहमपि
यादव । नामतः प्रवरो नाग सखा शक्रस्य धीमतः ॥ ३९ ॥ न
देवा योद्धुमिच्छन्ति ह्यन्यतो मधुसूदनात् । आनृण्य सौहृदस्याह-
मधिगन्तास्मि माधव ॥ ४० ॥ ततस्तयोस्तदा रौद्रः मग्राभो बबुधे
नृप । अस्त्रैर्दिव्यैर्नरव्याघ्र शौनेयद्विजमुख्ययोः ॥ ४१ ॥ श्रीश्च

चपलताको तो सर्वदा सहना ही चाहिये ॥३४॥ तदनन्तर प्रवर
ब्राह्मणने गरुड पर बैठे हुए सात्वतिके साठ रथकी ईपामात्री ३
हे राजन् ! उस समय पुरुषव्याघ्र शिनिके पीतेने धनुष घुमाते
हुए प्रवरके बाणोंको काट कर यह बचन कहा, कि ॥ ३६ ॥
ब्राह्मणको मारना नहीं चाहिये आप अपने मार्ग पर ही स्थित
रहिये क्योंकि ब्राह्मण अपराध करने पर भी ब्राह्मणोंसे अवध्य
रहते है ३७ हे कुकनन्दन ! उस समय प्रवरने हँसकर कहा,
कि-मनुष्योंके ऊपर क्षमा करना छोडकर अब तुम सब प्रकारसे
युद्ध करो ॥ ३८ ॥ हे गदव ! मैं भी जामदग्नि पुत्र-परशुरामजी
का शिष्य हूँ मेरा नाम प्रवर है और मैं बुद्धिमान् इन्द्रका मित्र
हूँ ॥ ३९ ॥ देवता मधुसूदनसे-अतिरिक्त दूसरेसे युद्ध करना
नहीं चाहते और हे माधव ! मैं भी आप मित्रतासे उच्छ्रय हो
जाऊँगा ॥ ४० ॥ हे राजन् ! हे-नरव्याघ्र ! तदनन्तर शिनिपुत्र
और द्विजमुख्यमें-दिव्य अस्त्रोंसे भयंकर संग्राम होने लगा ४१
उस समय उन महात्माओंके-संग्राम चलने पर पृथिवी तथा सँकड़ों

चाल तदा राजन ह्यचलाश्च सदृशगः । तद्विपन् वर्तन्ति संग्रामे
 तेषामनिमहात्मनाम् ॥ ४२ ॥ नातिशिक्ष्ये रणे कार्ष्णिणैर्द्विमस्र
 भृताम्बरम् । ऐन्द्रिः कार्ष्णिण महात्मान गापिनं शूरसत्तमम् ४३
 इन्व शृङ्ख मतीच्छेति तावुषी पोथमत्तमी । यूयुतांते नरश्रेष्ठ पर-
 स्परजगैषिणौ ॥ ४४ ॥ अथ शार्ङ्गपुत्रसुतं शचीपुत्रः प्रतापवान् ।
 विभाष्याभ्यहनद्राजन् दिव्येतास्त्रेण सत्वरः ॥ ४५ ॥ सोऽम्ब्रं
 तदग्निदीप्यन्तमापवन्तं शितैः शरैः । तस्तम्भे बाणजालेन तद-
 द्भुवमित्राभवत् ॥ ४६ ॥ ननस्तदीप्यमानं तु पपात रणमूर्धनि ।
 रौक्मिणोपस्य कौरव्य घोरं दानवपर्दनम् ॥ ४७ ॥ तेनास्त्रेण
 रथा दग्धः प्रद्युम्नस्य महात्पनः । नादहतस्तुत्रोरं तं रौक्मिणोयं
 नराधिप ॥ ४८ ॥ दहत्यग्निर्न स्वस्वग्निरुद्धतोति विशाम्पते ।
 पर्वत ऊर्षने लगे ॥ ४९ ॥ कृष्णपुत्र प्रद्युम्न अस्त्रचारियोमै श्रेष्ठ
 इन्द्रपुत्रसे न बह साता और इन्द्रपुत्र भी कृष्णपुत्र महात्मा शूर-
 सत्तम गापावान् प्रद्युम्नसे न पढ़ सका ॥ ४३ ॥ हे नरश्रेष्ठ !
 वे श्रेष्ठ योधा मारो पकड़ो और ले लो कह कर युद्ध करने
 लगे ॥ ४४ ॥ हे राजन् ! तदनन्तर प्रतापी शचीपुत्रने शार्ङ्ग धनुष
 रूप आयुधको धारण करने वाले श्रीकृष्णके पुत्रसे भाषण कर
 उसके फुर्तीसे दिव्य अस्त्र गाया ॥ ४५ ॥ तब प्रद्युम्नने उस आते
 हुए प्रदीप्त अस्त्रको तेज बाणोंका जाल बाँधकर स्तम्भित कर
 दिया, यह घटना अद्भुत सी हुई ॥ ४६ ॥ हे कौरव्य ! तब
 दानवर्षाका पर्देन करने वाला दिव्यता हुआ भयंकर अस्त्र रुक्मिणी-
 पुत्रके सामने भुन्नाता हुआ गिर पड़ा ॥ ४७ ॥ उस अस्त्रसे
 महात्मा प्रद्युम्नका रथ भस्म होगया परन्तु हे राजन् ! वह भयं-
 कर पराक्रमी प्रद्युम्नको भस्म न करसका ॥ ४८ ॥ हे राजन् !
 क्योंकि-बड़ा हुआ अग्नि भी अग्निको नहीं जलासकता उस
 समय महाभुज रुक्मिणीपुत्र उस भस्म होते हुए रथमेंसे कूद

दग्धाद्रथान्महाबाहू रौक्मिण्योः प्रचक्रमे ॥४६॥ अथ नागगण-
सुतो ! वरगो रथिना वरः । स्थिनो धनुष्मानाकासं जयन्तमिद-
मन्नवीत् ॥५०॥ गहेन्द्रपुत्र दिव्यं त्वं यदस्त्रं सुक्तवानसि । नाह-
मीदृशाब्जपाणां शक्यो हन्तु शर्मैरपि ॥५१॥ मयत्नं कुरु शिञ्जाणां
यत्न मेऽद्यपदर्शय । नास्ति मेऽतिशयं कर्ता संग्रामेऽपरनन्दने ५२
आसीन्मे साध्वसं दृष्ट्वा रथस्थं त्वां धृतायुधम् । विभेमि तव
नेदानीं युद्धे दृष्टवलो वशम् ॥ ५३ ॥ मनसा स्मर्गतां सैव पारि-
जातस्त्वया तवः । शक्यं न खलु हस्ताभ्यां स्पष्टव्यो यस्त्वया
हसौ ॥ ५४ ॥ रथो मायामयो दग्धस्त्वया यो ह्यस्त्रतेजसा ।
ईदृशानां सहस्राणि स्रष्टुं शक्तोऽस्मि मायया ॥ ५५ ॥ एवमुक्तो
जयन्तश्च ह्युमोचास्त्रं महाबलः । तपसोपचितं तेन स्वयमेवाति-
तेजसा ॥५६॥ तत्प्रयुम्नो महावेगं शरजालैरचारयत् । चत्वार्य-

पदा ॥ ४६ ॥ तदनन्तर रथहीन हुआ रथियोंमें श्रेष्ठ धनुषधारी
आकाशमें खड़ा हुआ नारायणपुत्र जयन्तसे कहने लगा ५०
हे गहेन्द्रपुत्र ! तूने दिव्य अस्त्रका प्रयोग किया परन्तु मैं ऐसे
सैकड़ों अस्त्रोंमें भी नहीं मारा जा सकना ॥ ५१ ॥ तू अपनी विद्या-
प्रकाशित करने का यत्न कर और मुझे बल दिखा दे अपरनन्दन !
तू मुझसे संग्राममें बड़ नहीं सकेगा पहले तुझे रथपर बैठा हुआ
और आयुध नारण करता हुआ देव्य कर मुझे कुछ डर लगा
था परन्तु मैं अब तेरे बलसे नहीं डरना क्योंकि-युद्धमें मैंने तेरा
बल देखलिया ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ अब तू इस पारिजात युक्तका
मनमें ही स्मरण करभोगेगा परन्तु तू इसे हारोंसे नहीं छूमरेगा ५४
तूने अपने अस्त्रके तेजसे मेरे प्राणानय रणको भक्षण कर दिया
परन्तु मैं माया करते ऐसे सःस्रों रथ रत्न सङ्गना हूँ ॥ ५५ ॥
इस बातको सुनकर महाबली जयन्तने प्रति आ तपसे पाया हुआ
एक बाण छोड़ा ॥ ५६ ॥ उस समय प्रयुम्नने उस महानेगान्

आणि दिव्यानि सुमुने चापराणि सः ॥ ५७ ॥ दिव्यु सर्वाणि
 रुन्धुः तान्यस्याएव भारत । रौन्निखेः । महात्मा जगन्तिके ष
 पञ्चमम् ॥ ५८ ॥ महोन्कासदृशान् बाणानस्याएवगरसत्तनः ।
 सुगोच यानि घोराणि प्रद्युम्नं प्रति सर्वतः ॥ ५९ ॥ तानि सर्वाणि
 बाणोद्यैः कार्दियरस्त्राएववारयत् । जयन्तं चापरेषाणैर्विन्ध्याश्च
 निशितैस्तदा ॥ ६० ॥ ततो नादः समुत्सृष्टो क्षमरैः पुण्यकर्मभिः ।
 दृष्ट्वा स्थैर्यं च शौच्यं च प्रद्युम्नस्य महात्मनः ॥ ६१ ॥ अपरस्यापि
 बाणेन शिनेन शिनिपुङ्गवः । चिच्छेदेष्वासत्तं वीरो हस्तायापं
 च भारत ॥ ६२ ॥ ततोऽन्गत् स तु गग्राह महत्तद्रुक्तागम् ।
 महेन्द्रदत्तं गवरो महाशनिसगम्भनम् ॥ ६३ ॥ स तेन वीरो महता

बाणको बाणोंका जाल पूरकर रोक दिया तब जयन्तने श्रीर
 भी चार दिव्य अस्त्र छोड़े ॥ ५७ ॥ हे भरगवशी राजन् ! उन
 अस्त्रोंने सब दिशाओंको और शन्नरिक्तमें पाँचों महात्म प्रद्युम्न
 को भी रोक लिया ॥ ५८ ॥ अमरसत्ताम जयन्तने वड़ी भारी
 उक्ताकी समान बाणोंकी तथा श्रीर भी भयंकर बाणोंको प्रद्युम्न
 के ऊपर चारों ओरसे बरसाया ॥ ५९ ॥ कृष्णपुत्रने उन सब
 बाणोंको बाणोंका अहन्ता चलाकर पीछेकी हग दिया और
 दूसरे तेज बाणोंमें जयन्तको भी घायल कर डाला ॥ ६० ॥ उस
 समय महात्मा प्रद्युम्नकी शीघ्रता और स्थिरताको देखकर पुण्य-
 कर्म करने वाले देवता भी गर्जना कर उठे ॥ ६१ ॥ हे भरत-
 वंशी राजन् ! इसी समय शिनिपुङ्गव वीर सात्विकिने भी तेजबाण
 मार कर गवर्के धनुष और उसके पकड़नेकी जगहको काट
 डाला ॥ ६२ ॥ उस समय गवर्ने वड़े भारी वज्रकी समाग शब्द
 करने वाले इन्द्रके द्विये हुए दूसरे वड़े भारी धनुषको उठा
 लिया ॥ ६३ ॥ तद्गन्तार वह वीर श्रेष्ठ ब्राह्मण उस वड़े भारी
 धनुषसे सूर्यकी किरणोंकी समाग कान्ति वाले अनेक प्रकारके

धनुषा निपमत्तमः । शगन् सुगोच विविधानर्करश्मनिभांस्तदा
 ७ कर्तुं च धनुश्चित्रं शैनेयसागिनीजमः । विव्याध सर्वगात्रेषु
 बाणैरपि च सात्यकिम् ॥ ६५ ॥ धनुगदाय शैनेयस्ततोऽन्य-
 त्कुरुनन्दन । दृढं भारसहं धीमान् विव्याध मवरं रणे ॥ ६६ ॥
 उच्चकर्तुर्दुरन्गोऽन्यं चर्मणी तौ शितैः शरैः । गात्रेभ्यश्चैव
 मांमानि ममेगिद्धिः शरोश्चमैः ॥ ६७ ॥ अथाष्टभारबाणेन पुन-
 रिष्यामनं द्विजा । विच्छेद् पूर्वो वीरस्त्रिभिरचैनमताडयत् ६८
 अन्यदिष्वासनं तं तु प्रदीतुमनसं द्विजः । गदया ताडयामास
 ज्ञेयया लघुदन्तवान् ॥ ६९ ॥ सोसि चर्म च जग्राह सात्यकिः
 प्रह्वनन्निव । न जग्राह धनुर्वीवान् गदयाभिहतो भृशम् । ततः
 शरशनान्येन सुगोच मवरस्तदा ॥ ७० ॥ विद्वस्तमिव विज्ञाय
 सात्यकि गदुचन्दनम् । मद्युम्नस्य ददौ खड्गं निर्मलाकाशसन्नि-

अस्नोंको छोड़ने लगा ॥ ६४ ॥ उसने अगित पराक्रमी सात्यकि
 के विचित्र धनुषको काट डाला और बाण मारकर सात्यकिके
 सारे शरीरको भी घायल कर डाला हे कुरुनन्दन ! तदनन्तर
 शिशिपुत्रने दूसरा भारको सहने वाला दृढ़ धनुष लेकर मवरको
 बाणोंसे घायल कर डाला ॥ ६५ ॥ उन दोनोंने तेज बाणोंसे एक
 दूसरेके कपड़ोंको काट डाला और मर्मभेदी बाणोंसे उद्योग कर
 के जरीरके मांसको भी काटने लगे ॥ ६७ ॥ इसी समय वीर
 मवरने आठ भारवाले बाणसे सात्यकिके धनुषको फिर काटडाला
 और सात्यकिको भी तीन बाणोंसे ताड़ित किया ॥ ६८ ॥
 तदनन्तर फुर्तीने हाथ पाले घातमय मवरने मनमें दूसरा धनुष
 लेनेका निचार करनेवाले सात्यकिके गदा मानी ॥ ६९ ॥ तदन-
 न्तर गदासे बढ़ा ही पिटे हुए बुद्धिमान सात्यकिने धनुषको ग्रहण
 करके मुहकुराकर दांत और तलवा उठाली उस समय मवरने
 यदुचन्दन सात्यकिको बिकूल इस्तयाला जानकर सैंढों बाण

भम् ॥७१॥ तस्य निच्छेद गच्छेत् निस्त्रिंशं प्रवरस्तदा । त्सरु
देशे पापगच्छ प्रवरः प्रहसन्निव ॥ ७२ ॥ उपधमच्च तथा चर्म
शितैर्वाणैरजिह्वगैः । आनयान च शक्यैर्न हृदि विभो ननाद
च ॥७३॥ तं विकलनमिव ज्ञात्वा पारिजातजिह्वीर्षया । ताचर्गा-
भ्याशे रथेनैव स तर्था प्रवरस्तदा ॥ ७४ ॥ तं पत्तपुटवेगेन
विज्ञेय गरुडस्तदा । गव्युतिमेकां सरथः स पयात मुपोड च ७५
तं जयन्तो निपत्याथ पतित ब्राह्मणं वृष । समाशवास्य रथं
शीघ्रं ममारोपितर्चास्तदा ॥ ७६ ॥ शैनेयमपि धृष्टन्तं पतन्तं
च मुहुर्मुहुः । आरषासयानः प्रद्युम्नः पितृव्यं परिषस्वजे ॥७७॥
तं हि पस्पर्श हस्तेन सव्येन मधुसूदनः । विरुजः स्पर्शमात्रेण

मारै (सात्यकिकी ढाल तलवार कटगई) तब प्रद्युम्नने सात्यकि
को निर्मल आकाशकी सगान एक खड्ग दिया ॥ ७० ॥ ७१ ॥
प्रवरने मुट्टीसे पकड़नेके स्थानसे भबल नामक बाण मार कर
उम तलवारकी काट कर गिरा दिया फिर हँसने लगा ७२
तदनन्तर उस ब्राह्मणने सरलतासे तेज चलने वाले बाण मार
कर सात्यकिकी ढालकी बीच डाला और उसकी छातीमें
शक्ति मार कर दहाड़ने लगा ॥ ७३ ॥ उसको घबड़ाया
हुआ जान कर ब्राह्मण प्रवर पारिजातको लेनेकी इच्छासे
गरुडजी के पास ही अपने रथमें खड़ा होगया ॥ ७४ ॥
तब गरुडजीने अपने दोनों पंखोंके वेगसे उसको रथ सहित
उठाकर दो कोस दूर फेंक दिया उस समय वह गिर पड़ा और
मूर्छित होगया ॥ ७५ ॥ उस समय जयन्तने उस गिरे हुए
ब्राह्मणकी यह सब मारबधसे हुआ है इस प्रकार दाढ़स देकर
फिर रथ पर चढ़ा दिया ॥ ७६ ॥ इसी समय चारचार गिरने
हुए और मूर्छित हुए चचा सात्यकिकी भी प्रद्युम्नने दाढ़स दे
कर आलिंगन किया ॥ ७७ ॥ मधुसूदनने भी अपना दाहिना

सात्यकिः सगणध्वज ॥७८॥ पृथुञ्चो दक्षिणे पार्श्वे वामे तु शिनि-
पुङ्गवः । तस्थतुः पारिजातस्य युद्धशौण्डितरावुभौ ॥७९॥ जयन्तः
प्रवरश्चैन रथेनैकेन भारत । सम्पन्नान्नां महेन्द्रेण प्रहृष्टोक्तौ
महात्मना ॥ ८० ॥ नासन्नमभिगन्तव्यं गरुडस्य कथञ्चन ।
बलवानेव पतनां राजा च विनतास्रुतः ॥८१॥ दक्षिणे चैव सव्ये
च पार्श्वे गम धृतावृधौ । उभौ स्थितौ युद्धद्यमानं गामेव हि म-
पश्यतम् ८२ ॥ एवमुक्तौ स्थितौ नीरौ ततः शक्रस्य पार्श्वयोः ।
ददृशाते युद्धद्यमानौ देवराजजनार्दनौ ॥ ८३ ॥ अथेन्द्रो गरुडं
वालंमहाशानिसमस्वनैः । निव्याध सर्वगात्रेषु महास्रुपवरैस्तथा ८४
स नान् वाणानगणयन् नैनतेयः पृणापदान् । संसाराभिष्टुग्वो
वीरः शक्रनागपरिदगः ॥ ८५ ॥ उभौ तौ सहसा राजन बलिनौ

हाथ सात्यकिके ऊपर फेरा श्रीकृष्णके स्पर्शमात्रमे ही सात्यकि
की पीड़ा जाती रही ॥ ७८ ॥ इसके अनन्तर परिजातके दाहिनी
ओर पृथुन्न और दाई ओर शिनिपुङ्गव सात्यकि खड़े होगए वे
दोनों युद्धनतुर थे ॥ ७९ ॥ हे भारत ! इसी सगण एक ही रथ
पर बैठकर आते हुए जयन्त और प्रवरसे मात्गा इन्द्रने हँसकर
कहा, कि—॥ ८० ॥ गरुडके पास कभी नहीं जाना चाहिये क्यों
कि यह विनतानन्दन बलवान् हैं और पक्षियोंके राजा हैं ८१
तुम दोनों आयुधोंको धारण न कर मेरे दाई और दाई ओर
ही खड़े रहो और खड़े होकर मुझ युद्ध करते हुएको ही देखते
रहो ॥ ८२ ॥ इस प्रकार कहने पर वे दोनों वीर इन्द्रके दोनों
ओर खड़े हो गए और युद्ध करते हुए देवराज तथा जनार्दन
को ही देखते रहे ॥ ८३ ॥ तदनन्तर इन्द्रने गरुडकीं सारे
शरीरमें बड़े भारी उक्ताकी सगण शब्द करने वाले श्रेष्ठ २
अस्त्र पारे ॥ ८४ ॥ परन्तु अरिदमन मनापी वीर गरुडकी उन
वाणोंको कुछ न गिनकर इन्द्रके हाथीकी ओर बढ़ते ही चली गए

गजपत्नियो । प्रयुद्धौ वीर्यसम्पन्नौ महाप्राणौ दुरासदौ ॥८६॥
 रदनैः पन्नगरिपुं करेण शिरसा तदा । ऐरावतो गजपतिरा-
 जघान नदस्तथा ॥ ८७ ॥ तथा नखांकुशैस्तीक्ष्णैर्बभूवतेषो बलो-
 स्कटः । तथा पक्षनिपातैश्च शक्रनागं जघान ह ॥ ८८ ॥ मुहूर्त
 सुमहान्नासीत् सम्पातो गजपत्नियोः । विस्मापनीयो जगतः
 प्रेक्षितृणां भयावहः ॥ ८९ ॥ मूर्ध्न्यथैरावतं ताक्ष्यस्ताडयामास
 भारण । नखांकुशक्रालेन चरणेन महाबलः ॥ ९० ॥ संग्रहा-
 राभिमन्तसो निपपात त्रिविष्टपात् । पारियात्रे गिरिश्रेष्ठे द्वीपे-
 ऽस्मिन् जनमेजय ॥ ९१ ॥ पतन्तमपि तं शक्रो न मुणोच महा-
 बलः । कारुण्येण सौहार्दात् पूर्वाभ्युपगमादपि ॥९२॥ कृष्णो-
 प्यन्वगमच्चनेन पृथुनः पूषोऽव्यगः । परिजातवता धीमान् गरुडेन

हे राजन् ! इसके उपरान्त वह वीर्य सम्पन्न महाप्राण दुरासद
 बलवान् हाथी और पत्नी सदसा लड़ने लगे ॥८६॥ इस्तिराग
 ऐरावत अपने दाँत मूँड़ तथा मस्तकसे सपोंके शत्रु गरुड़जी पर
 प्रहार कर विशाड़ने लगा ८७ इसीप्रकार बलमें उफ्फट गरुड़जी
 भी तीक्ष्ण नाखूनरूपी अंकुशोंसे और परोंका प्रहार कर इन्द्रके
 हाथीको मारने लगे ॥ ८८ ॥ मुहूर्त भर तक जगत्को विस्मित
 करनेवाली और देखनेवालोंको भयभात करनेवाली हाथी और
 पत्नीकी बड़ी भारी झगड़ हुई ८९ हे भरतवंशी राजन् ! इसके उप-
 रान्त महाबली गरुड़ने ऐरावत हाथीके मस्तक पर अपने मस्-
 रूपी करान अकुश बाने चरणका प्रहार किया ॥ ९० ॥ हे
 जनमेजयातव नो प्रहारसे नष्ट होकर वह श्रेष्ठ हाथी स्वर्गमेंसे इस
 द्वीपमें श्रेष्ठ पर्वत पारियात्र पर गिर पड़ा ॥ ९१ ॥ कृष्णाके
 कारण और पहिली पित्रनाके कारण महाबली इन्द्रने उसके
 गिरने पर भी उसको न छोड़ा ॥ ९२ ॥ परिजात वृक्षवाले गरुड़
 जीके साथ ही अव्यय (और जगत्के) उत्पत्तिस्थान महाबली

महाबलः ६३ स तस्थौ पर्वतश्रेष्ठे पारिजात्रे तु वृषहा । पुराचने
समाश्वस्ते संग्रामो वटुधे पुनः ६४ शरैराशीनिपपूक्यै रत्नयुक्तैः
सुतेजितैः । अन्गोन्गं कुरुशार्दूल शक्रकेशनयोर्महान् ॥ ६५ ॥
ततो वज्रायुधो वज्रमशनिं च पुनः पुनः । मुमोच गरुडे रागन्नै-
राचंतरिणौ नृप ॥ ६६ ॥ वज्रशनिपातास्तान् सहे शक्रस्य पत्ति-
राट । अवध्यो वलिनां श्रेष्ठो निसर्गेण ततो वलात् ॥ ६७ ॥
मुमाच पत्तमेकैकं मानयन्नशनिं सदा । वज्रं च देवराज्ञोऽपि भ्रातुः
करपपसंभवः ॥ ६८ ॥ आक्रम्यमाणस्तादृर्गेण न्यमञ्जन्नृपते
गिरिः । विवेश धरणीं राजञ्जीर्णमाणः समततः ॥ ६९ ॥
चुकूज बहुमानेन कृष्णस्य स तु पर्वतः । तं चाद्राक्षीचतः कृष्णः
क्लिचिच्छेषमभोजनः ॥ १०० ॥ तं मुक्त्वा गरुडेनाथ तस्थौ देवो

बुद्धिमान् श्रीकृष्ण भी उसके पीछे पीछे चले ॥ ६३ ॥ वृषासुर
का नाशक इन्द्र पर्वतश्रेष्ठ पारिजात पर खड़ा हो गया ऐरावतके
विश्राम लेनेके उपरान्त हे कुरुशार्दूल ! इन्द्र और केशनमें रत्न-
जड़ित सर्पकी समान तीखे बाणोंसे फिर संग्राम होने लगा ६४
हे राजन् ! वज्रका आयुध धारण करनेवाले इन्द्रने ऐरावतके
शत्रु गरुड़ पर वज्र और अशनीका बारम्बार प्रहार किया ६६
वलिवानोंमें श्रेष्ठ अवध्य पत्तिराज गरुड़ने अपने स्वाभाविक बल
से इन्द्रके वज्र और उल्काओंकी समान पहारोंको सहलिया ६७
करपपमे उत्पन्न हुए गरुड़जीने अपने भाई देवराजका तथा वज्र
और अशनिका मान रखते हुये अपना एक २ पर गिरदिया ६८
हे राजन् ! वह पर्वत गरुड़जीसे दन कर चारों ओरको विलरता
हुआ पृथ्वीमें घुसने लगा ॥ ६९ ॥ कृष्णके बड़े भारी बोझसे
वह पर्वत शब्द करने लगा तब श्रीकृष्णने उसकी ओर ध्यान
दिगा अभोजन श्रीकृष्ण उसको थोड़ासा बाँटी रहा हुआ देव
कर उसको छोड़कर गरुड़के द्वारा आकाशमें पहुँच गये फिर

निहायसि । प्रद्युम्नश्च तदोवाच सर्वकृत्लोकभावनः ॥ १ ॥ इतो
द्वारवतीं गत्वा स्थमानय मा चिरम् । सदारुकं महाबाहो मत्तेजो-
वलपाश्रितः ॥ २ ॥ वक्तव्यो बलभद्रश्च राजा च कुरुराधिपः ।
श्वो जित्वेन्द्रं स्वागमिष्ये द्वारकागिति मानद ॥ ३ ॥ तथेत्युक्त्वा
तु धर्मात्मा प्रद्युम्नः पितरं निभुः । गत्वा गयोक्तमुक्त्वा च याद-
वेन्द्रचलाबुधौ ॥ ४ ॥ नाडिकान्तरमात्रेण पुनस्त्वं देशमागयौ ।
दारुकेण समायुक्तं रथमास्थाय भारत ॥ १०५ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुार्चणि पारिजातहरणे
कृष्णेन्द्रयुद्धे त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥

वैशम्पायन उवाच । तमारुह्य रथं कृष्णः पारियात्रं गिरिं
ययौ । यत्रैरावतमास्थाय स्थितः सुरपतिः प्रभुः ॥ १ ॥ पारियात्रो
गिरिश्रेष्ठो दृष्ट्वायातं जनार्दनम् । शाणपादसगो भूत्वा मविवेश

सबके रचने वाले लोकपूजित कृष्णने प्रद्युम्नसे कहा, कि १०१
हे महाभुज ! तू मेरे तेज और बलके ऊपर रहता है, अब तू
द्वारकापुरीको जाकर रथ और दारुकको शीघ्रही बुलाला १०२
हे मानद ! बलदेवसे और कुरुरोंके स्वामी राजा उग्रसेमसे तू यह
कहना कि-मैं (कृष्ण) इन्द्रको जीत कर बल द्वारकाको
आऊँगा ११३ तव धर्मात्मा विभु प्रद्युम्न अपने पितासे बहुत
अच्छा कहकर द्वारका पुरीमें जा उन दोनों बलीयादवेन्द्रोंसे
श्रीकृष्णने जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार कह कर घड़ीभरमें
ही दारुकसे युक्त रथमें बैठ कर फिर वहीं आगया ॥ १०४ ॥ १०५ ॥
तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ७३

वैशम्पायनजीने कहा कि-उस रथपर बैठकर श्रीकृष्ण
ऐरावन हाथी पर बैठे हुए इन्द्रके पास पारियात्र पर्वत पर
चले ॥ १ ॥ पर्वतश्रेष्ठ पारियात्र श्रीकृष्णकी आता हुआ देख
शाणपादकी समान होकर अर्थात् उड़दोंके ढेरकी समान शिथिल

वसुन्वराम् ॥ २ ॥ प्रियार्थं वासुदेवस्य पभावज्ञो महात्मनः । तस्य
 प्रीतो हृषीकेशः पर्वतस्य जनाधिप ॥ ३ ॥ ततः प्रयान्तं युद्धार्थ-
 गच्छुतं कुरुनन्दन । सपाङ्गिजातो गरुडः पृष्ठतोऽनुवर्षी तदा ४
 प्रद्युम्नः सात्यकिश्चापि गरुडस्यै महावली । गतावुषी रत्नणार्थं
 पारिजातपरिन्दपी ॥ ५ ॥ ततस्त्वस्तंगतः सूर्यः पृच्छा रजनीं
 नृप । उपस्थितं पुनर्युद्धं शक्रकेशनयोरिह ॥ ६ ॥ सुमहाराहतं
 दृष्ट्वा विष्णुरैरावतं गजम् । नानिकल्पं महातेजा देवराजानप-
 ब्रवीत् ॥ ७ ॥ गरुडाभिहतः पूर्वं नानिकल्पो गजोत्तमः । ऐरा-
 वतो महाबाहो रात्रिश्च समुपोह्यते ॥ ८ ॥ श्वः पभाते यथा कामं
 प्रवर्तस्व यथेच्छसि । एवमस्तिगति कृष्णं तु देवराजोऽब्रवीत्प्रभुः ९
 उवास पुष्कराभ्याशो देवराजः पुरन्दरः । व्रजं गिरिपथं कृत्वा

होकर भूमिमें फैल गया ॥ २ ॥ महात्मा केशवके पभावको जानने
 वाले उस पर्वतने वासुदेवका भिय करनेके लिए ऐसा किया था,
 हे जनाधिप ! तब श्रीकृष्ण उस पर प्रसन्न होगए ॥ ३ ॥
 हे कुरुनन्दन ! उस समय युद्धके लिए प्रयाण करनेवाले श्रीकृष्ण
 के पीछे २ पारियात्रको लेकर गरुड़जी भी चले ॥ ४ ॥ और
 गरुड़ पर बैठे हुए महावली अरिन्दपन सात्यकि और प्रद्युम्न भी
 पारिजातकी रत्ना करनेके लिये चले ॥ ५ ॥ हे राजन् ! तदन-
 न्तर सूर्य अस्त होकर रात्रि आरम्भ होनेके उपरान्त श्रीकृष्ण
 तथा इन्द्रमें फिर युद्ध आरम्भ होगया ॥ ६ ॥ महातेजस्वी विष्णु
 ने ऐरावत हाथीको महारसे आहत होनेके कारण कुछ असमर्थ
 देख कर देवराजसे कहा, कि-॥ ७ ॥ हे महाशुन ! गरुड़जी
 पहिले आहत होचुके हैं और इस्तिश्रेष्ठ ऐरावत भी कुछ असमर्थ
 होचुके हैं तथा इव समय रात्रि भी बढ़ रही है ॥ ८ ॥ इस
 लिये कल पातःकाल आप जो चाहें सो करिये । इस समय युद्ध
 बन्द करिये तब प्रभु देवराजने श्रीकृष्णसे एतास्तु कहा ॥ ९ ॥

धर्मात्मा नृपसत्तम ॥१०॥ ब्रह्मा ततो जगामाथ कश्यपश्च महा-
 नृपिः । अदितिश्चैव सर्वे च देवा मुनय एव च ॥११॥ साध्या
 विश्वे च कौरव्य नासत्यानश्विनौ तथा । आदित्याश्चैव रुद्राश्च
 वसवश्च जनेश्वरः ॥१२॥ नारायणश्च पुत्रीण सत्यकेन च भारत ।
 सहोवास गिरौ रम्ये पारियात्रे प्रहृष्टवत् ॥ १३ ॥ यत्स शाण-
 प्रमाणोऽस्य भक्त्या समभवन्नु । वरं पादात्तनस्तस्य पर्वतस्य
 महाद्युतिः ॥१४॥ शाणपाद इति ख्यातो भविष्यसि महागिरे ।
 पुण्येनार्थेन तुज्यो हि पुण्यो द्विपत्तः शुभः ॥ १५ ॥ एवमेव च
 भूयिष्ठो भव पर्वतसत्तम । मेरुणा स्पर्धमानो हि बहुचित्रमृगै-
 र्युतः । रमे त्वां पश्यमानोऽह बहुचित्रनभायुतम् ॥ १६ ॥ तथा
 दत्त्वा वर तस्य पर्वतस्य तु वंशतः । दधौ गङ्गां सरिच्छ्रेष्ठां

हे नृपसत्तम ! उस समय देवगण धर्मात्मा पुरन्दर पर्वतवृन्दमय
 आचरण बनाकर पुष्करके समीपमें टिक गया १० हे भारत ! उसी
 समय वहाँ पर ब्रह्माजी महर्षि कश्यप, अदिनि, सब देवता मुनि,
 साध्य विश्वैरेवता, अश्विनीकुमार, आदित्य, रुद्र और वसु
 आगए ॥ ११ ॥ १२ ॥ हे भरववंशी राजन् ! इसी समय
 श्रीकृष्ण भी प्रसन्न मनसे अपने पुत्र और सात्यकिके साथ रम-
 णीय पारियात्र पर्वत पर विराजमान थे ॥ १३ ॥ हे राजन् !
 श्रीकृष्णजी भक्तिके कारण वह पर्वत उड़दोंके डेर की समान
 होगया था इस लिये महाकान्तिवान् श्रीकृष्णने उस पर्वतको
 वरदान दिया; कि-॥ १४ ॥ हे महागिरे ! तू शाणपाद
 नामसे प्रसिद्ध होगा और तू शुभ पर्वत हिमवान्से आधा
 पुण्यात्मा होगा ॥ १५ ॥ हे पर्वतसत्तम ! तू मेरुपर्वतसे स्पर्धा
 कर फिर वैसा ही बड़ा हो जा, मैं तुझै अनेक प्रकारके विचित्र
 मृगोंसे और बहुतसे विचित्र वृक्षोंसे अलंकृत देख कर आनन्दित
 हूँगा ॥ १६ ॥ फेरत उस पर्वतको वर देकर और वृषभध्वज

नमस्कृत्वा वृषभध्वजम् ॥ १७ ॥ अथाययौ विष्णुपदी स्मृता
 कृष्णेन भारत । संपूज्य तां ततः कृष्णः कृत्वा स्नानमधोत्तजः १८
 उदकं च गुहायाथ विन्वं च हरिरन्वयः । देवमःत्राहयागास रुद्रं
 सर्वेश्वरेश्वरम् ॥ १९ ॥ ततः प्राप्तो महादेवः सोमः सपवरो
 विभुः । तस्थायुपरि विन्वस्य तथा गङ्गोदकस्य च ॥ २० ॥ तं
 पारिजातकुसुमैरर्चयामास केशवः । तुष्टाव वाग्मिरीशेशं सर्व-
 कर्तारमीश्वरम् ॥ २१ ॥ श्रीकृष्ण उवाच । रुद्रो देवस्त्वं रुद्र-

शंकरको प्रणाम कर नदियोंमें श्रेष्ठ गंगाजीका ध्यान करने
 लगे १७हे भरतवंशी ! श्रीकृष्णके स्मरण करने पर गंगा तहाँ
 पर आई अधोत्तज श्रीकृष्णने उनकी पूजा कर उनमें स्नान
 किया ॥ १८ ॥ तदनन्तर अच्युत हरिने जल और गुहाका
 विन्व चढ़ा कर सर्वेश्वर रुद्रका आवाहन किया ॥ १९ ॥ तब
 तो प्रभु महादेवजी अगने गणोंको तथा उमादेवीको साथमें ले
 कर तहाँ आगए और गंगोदक तथा विन्वके ऊपर विरोजमान
 होगए ॥ २० ॥ केशवने (ब्रह्मा आदि) ईशोंके भी ईश सर्व-
 कर्ताशिवजीकी परिजातके कुसुमोंसे पूजा कर उनकी वाणियोंसे
 स्तुति की ॥ २१ ॥ श्रीकृष्णने कहा; कि-हे देव ! आप रोनेसे
 और रुलानेसे और रोते रहनेसे रुद्र कहलाते हैं और
 रुलानेके कारण देवताओंसे श्रेष्ठ कहलाते हैं भक्तोंके लिये भक्त,
 वत्सलोंके लिये वत्सल कीर्तिसे सेवित मैं आपकी शरण लेता
 हूँ (तात्पर्य हे क्रीड़ापर ! तुम ही रुद्र हो श्रुतिमें लिखा है, कि-
 "सोरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्-वह रोता है और रोना
 उन रुद्रका रुद्रपना है" जीव शोकास्पद है एते हरिं सर्व रोद्र-
 गन्ति तस्माद् रुद्राः और आप प्रकारान्तरसे रुलानेवाले होनेसे
 भगंकर हैं "भीषास्माद् वातः पर्वते " इत्यादि शास्त्रसिद्ध महे-
 श्वर तुम ही हो 'नान्योतोस्ति द्रष्टा' इस श्रुतिके अनुसार आपके

नाद्रावणाच्च रौरुयमाणो द्रावणाच्चाति देवः । भक्तं भक्तानां
वत्सलं वत्सलानां कीर्त्या जुष्टं त्वां प्रपद्ये शरणम् ॥ २२ ॥
ग्राम्यारण्यानां त्वं पतिस्त्वं पशुनां ख्यातो देवः पशुपतिः सर्व-
कर्मा । नान्यस्त्वत्तः परगो देवदेव जगत्पतिः सुरवीरारिहन्तारश्च
यस्मादीशो महतामीश्वराणां भवानाद्यः प्रीतिदः माणदश्च ।

अतिरिक्त और कोई चेतन नहीं है, इस मकार रुद्रपदके समुदा,
यार्थको कह कर अब अवयवार्थको कहते हैं, कि रुद्राद्रावणाच्च
रुदन करनेसे अर्थात् मायापंजरके द्वारा जीवरूपी पत्नी का निरोध
करनेसे “इमे त्स्विंद्भि रोदसी गायया एहि काये” यहाँ पर घकार
के स्थानमें दकारका निपातन देखनेसे और “तस्मिंश्चान्योन्य-
मायया सन्निरुद्धः” इस श्रुतिसे भी रुणद्धीति रुद्रः अर्थात् रोकने
वाला रुद्र कहलाता है, रावण होनेसे अर्थात् मायाकी हिंसा करने
से आप संसार देनेवाले और मोक्ष देनेवाले होनेसे रुद्र कहलाते
हैं, श्रुतिमें लिखा है तस्याविज्ञानाद् योवगोनात् तत्त्वभावात्
भूगश्चान्ते निश्चमायानिवृत्तिः ॥—उसका ध्यान करनेसे तत्त्वज्ञान
करने पर अन्तमें तत्त्वज्ञानसे निवृत्ति होजाती है ।“ अब दूसरे
प्रकारसे शिवके नामका निर्वचन करते हैं अर्थात् जो रौरुयमाण
होने अर्थात् शब्दसे प्रणिपाद्यमान होनेसे जाननेमें आने ही रावण
अर्थात् रुलाने वाला होनेसे रुद्र कहलाता है अथवा चाणी ॥
अवलम्बन करने वाले महापपञ्चके रावण अर्थात् लवणोदरुकी
समान पविलापन होनेसे रुद्र कहलाते हैं ऐसे स्वाकाश शिवकी
में शरण लेता हूँ) २२ आप ग्राम्यारण्य पशुओंके अर्थात्
भोगसत्तासे विरक्त जीवोंके स्वामी हैं आप सर्वकर्मा और पशु
पति नामसे प्रसिद्ध हैं हे देवदेव ! और कोई आपसे श्रेष्ठ जगत्-
पति और वीर देवताओंके शत्रुओंको नाश करने वाला कोई
नहीं है २३ सम्पूर्ण शास्त्रोंके तत्त्वको जानने वाले सज्जन विद्वान्

तस्माद्धि त्वागीश्वरं पृहुरीशं सन्तो विद्वांसः सर्वशास्त्रार्थ-
 तज्ज्ञाः ॥ २४ ॥ भूतं यस्माज्जगदत्पन्तधीर त्वत्तोऽव्यक्तादत्तरा-
 दत्तरेण । तस्मात्त्वामाहुर्भव इत्येव; भूतं सर्वेश्वराणां महतामप्यु-
 दारम् ॥ २५ ॥ यस्माज्जितैरभिषिक्तोसि सर्वैर्देवासुरैः सर्वभूतेश्च
 श्रेव । महेश्वरं विश्वकर्माणमाहुस्त्वां वै सर्वे तेन देवातिदेवम् २६
 पूज्यो देवीः पूज्यसे नित्यदा वै शंशब्दोऽयः कांक्षिभिर्वरदामोघ-
 वीर्यः । तस्माद्विख्यातो भगवान् देवदेवः सनामिष्टः सर्वभूतात्म-
 भावी ॥ २७ ॥ भूमित्रयाणां देव यस्मात् प्रतिष्ठां पुनर्लोकानां
 भावनामेवकीर्तिः । उपम्वकेति प्रथमं तेन नाम तवापमेय त्रिदशेश

आपको इसी लिये ईश्वर कहते हैं, कि आप वड़े २ ईश्वरोंके
 भी स्वामी आद्य और प्रीति तथा प्राणका दान करनेवाले हैं २४
 हे अत्तरेश ! अर्थात् हे जीवोंके ईश ! अव्यक्त अर्थात् जीवकी
 समान अपसिद्ध आप अत्तरसे ही जगत् उत्पन्न हुआ है और
 आपमें ही लीन होजाता है इस लिये ही आप सब ईश्वरोंके भी
 कारण और उदारव्यक्तिको भव कहते हैं २५ आपने जीते-हुए
 सब देवता असुर और भूतोंसे अभिषेक कराया था इस लिये ही
 आपको देवाधिदेव विश्वकर्मा और महेश्वर कहते हैं (चात यह है
 श्रीकृष्णने शिवसे अपनी अभिन्नता दिग्दानेके लिये अपने
 ही राज्याभिषेकका वर्णन किया है) २६ आप पूज्य हैं देवता-
 सर्वादा आपकी ही पूजा करते हैं इच्छा रखने वाले पुरुषोंका
 आपको सर्वादा ध्यान रखना चाहिये और हे वरद ! आपका
 वीर्य अगोघ है इसी लिये आप भगवान् देवदेवासज्जनोंके इष्ट
 और सब भूतोंकी आपनेमें भावना करनेके स्वभाव वाले प्रसिद्ध
 हैं २७ हे देवाआप भूमिआदि तीनोंके अर्थात् भूमि अन्तरिक्ष स्वर्ग
 अथवा प्राण अपान व्यान अथवा अग्नि वायु सूर्य अथवा भूत
 भविष्यत् वर्तमान आदिके प्रतिष्ठा अर्थात् लगस्थान हैं और

नाथ ॥ २८ ॥ सर्वः शत्रूणां शासनादपमेयस्तथा भूयः शास-
नाच्चेश्वरेण । सर्वव्यापित्वाच्छंकरत्वाच्च सद्भिः । शब्दस्ये-
शानः श्रीकरार्काद्यतेजाः ॥२९॥संसक्तानां नित्यदा यत् करोपि
शर्म भ्रातृव्यान्वद्यनैपीः समस्तान् । तस्माद्देवः शंकरोऽस्य
प्रमेयः सद्भिर्धर्मज्ञैः कथ्यसे सर्वनाथः ॥ ३० ॥ दत्तः पृथारः
कुलिशेन पूर्ण तवेशान सुरराज्ञातिवीर्य । कण्ठे नैव्यं तेन ते यत्
पृष्टं तस्मात् ख्यातस्त्वं नीलकण्ठेऽतिदृग्पः ॥३१॥ यत्किंवाकं

लोकोंके उत्पत्ति कारण है इस लिये हे अपमेय ! हे देवताओंके ईशोंके स्वामी! आपका प्रथम नाम ब्रह्मरु है २८-आप शत्रुओंके शर्मा अर्थात् संहारक है और शासन करने पर शत्रुओंसे अप्रमेय अर्थात् अक्षेप्य है और फिर ईश्वर स्वरूपसे अर्थात् राजादिभावसे शासन करनेके कारण, सर्वव्यापी होनेके कारण अर्थात् भीतर बाहर व्यापक होनेके कारण और सज्जनोंका कल्याण करनेके कारण शब्दके ईशान अर्थात् सब शब्दोंके प्रमेयस्वरूपसे अबच्छेदक है श्रीकर है अर्थात् 'ऋतः सामानि यज्जुंषि सा हि श्रीरमृता सताम्' और "एपास्य परमा सपत्" इन दोनों श्रुतियोंसे श्रीशब्दवाच्य पर और अपर दोनों विद्याओंके करने वाले हैं और सूर्यसे भी अधिक तेजके प्रकाशक हैं २९ आप अपने भक्त देवताओंके मुख देने वाले हैं और आप उनके सम्पूर्ण शत्रुओंको नाश करते हैं इसी लिये आपको धर्मज्ञ सज्जन शंकर अपमेय और सर्वनाथ कहते हैं ॥३०॥ हे ईशान ! हे अतिवीर्य ! पहले देवताओंके स्वामीने आपके कुलिश मारा था आपने उसकी नीलिकाको अपने कंठमें धारण कर रखा है आपने अतिसमर्प्य होने पर भी ऐसा किया था (अर्थात् आप उस नीलिकाको दूर करसकते थे तब भी आपने ब्रह्म और चक्र का अपमान न हो इस कारण और प्रहार करने बाजेता यश

(६४८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [चतुःसप्ततितम

यच्च लोके भगांकं सर्वं सोपत्वं स्थावरं जङ्गमं च । माहुर्विपा-
स्त्वां गुणिनं तत्त्वविज्ञास्तथाध्येयामंशिकां लोकनाथीम् ॥३२॥
वैदेगीता सा हि तत् । पमूना यज्ञो दीक्षाणां योगिनां चातिरूपाः।
नात्पद्भुतं त्वत्सगं देवभूतं भूतं भव्यं भव देवाय नास्ति ॥३३॥
अहं ब्रह्मा कपिलो योप्यनन्तः पुत्राः सर्वे ब्रह्माणश्चातिवीराः ।
त्वत्तः सर्वे देवदेव पमूना एवां सर्वशः कारणात्मा त्वमीदृयः ३४
इति संरतृपमानस्तु भगवान् गोष्टपध्वजः । पसार्थं दक्षिणं हस्तं
नारायणमथाब्रवीत् ॥ ३५ ॥ मनीषितानामर्थानां प्राप्तिस्ते सुर-
सत्तम । पारिजातं च हर्तासि मा भूते मनसो व्यथा ॥ ३६ ॥

फैले इस कारण अपने कण्ठमें नीलिमा धारण ही कर रखी ऐसे
महाकाव्यिक आप मेरी भी रत्ना करिये) ३१ संसारमें जो
लिगांकित पदार्थ है और जो भगांकित पदार्थ है वे स्थावर जंगम
रूप सब पदार्थ उमासहित आप ही हैं इसी लिये तत्त्वको जानने
वाले ब्राह्मण आपको गुणवान् और पाठ करने योग्य और लोकोंकी
माता अम्बिकाको (गुणत्रयरूपा प्रकृति) कहते हैं ३२ उनका वेदीने
(अजामेकां लोहितकृष्णरूपाम् इत्यादि) श्रुतिओंसे गान किया है
और मायातत्त्वको अर्थात् महान्को उत्पन्न किया है आप
दीक्षितोंके लिये यज्ञस्वरूप और योगियोंके लिये अतिरूप है
हे देव ! आपकी समान अद्भुत देव न कोई है न कोई हुआ है
और न कोई होगा ॥ ३३ ॥ मैं कपिल अनन्त ब्रह्मा और
ब्रह्माजीके अतिवीर अर्थात् आभ्यन्तरिक शत्रुओंको जीतनेवाले
सनक अदि पुत्र हे देव ! यह सब आपसे ही उत्पन्न हुए
हैं इस प्रकार आप सर्वश कारणात्मा और पूजनीय है ३४
इस प्रकार स्तुति करने पर ध्वजामें बड़ेभारी टपभको धारण
करने वाले भगवान् शिव अपने दाहिने हाथको फैला कर नारा-
यणसे बहने लगें, कि-३५ हे सुरसत्तम ! आपको आपके मन

यथा मीनाकमाश्रित्य तपस्त्वमकरोः पूभो । तथा गम वरं कृष्ण
 संस्मृत्यं स्थैर्यमाप्नुहि ॥ ३७ ॥ अथध्यस्त्वमजेवश्च मत्तः शूरतर-
 स्तथा । भवितासीत्यवोचं यत्तत्तया न तदन्यथा ॥ ३८ ॥ यश्च
 स्तवेन मां भक्त्या स्तोष्यतेऽमरसत्तम । त्वया कृतेन धर्मज्ञ धर्म-
 भाक् सम्भविष्यति । सगरे च जय विष्णो पाप्य पूजां तथोत्त-
 माम् ॥ ३९ ॥ विन्वोदकेश्वरो नाम भविताऽहमिहानघ । देवे-
 श्वर त्वयाऽध्यापि देव सिद्धोपयाचनः ॥४०॥ इहम्होपोपितो
 विद्वान् भक्तिमान् मम केशव । त्रिरात्रमीप्सितोऽलोकान् गपि-
 ष्यति जनार्दन ॥ ४१ ॥ अविन्ध्या नाम देशोऽस्मिन् गंगा चैव
 भविष्यति । गंगास्नानसमं स्नानं मन्त्रतो भविता तथा ॥४२॥

चाहे पदार्थ मिलेंगे और आप पारिजातको छीनकर लेगाएँगे
 अतः आप अपने मनमें कष्ट न पाइये ३६ हे प्रभो ! आपने जिस
 प्रकार मैं आपको वर्तिका आश्रय लेकर तपश्चर्याकी थी उसी प्रकार
 हे कृष्ण ! आप मेरे वरका स्मरण करके धैर्य धरिये ३७ तुम
 अथर्व्य और अजेव हो और मुझसे भी शूर हो (यह बात बाणा
 सुर युद्धमें प्रकट होगी) मैंने, जो बात कह दी है वह उसी प्रकार
 होगी उसमें कुछ भेद नहीं होगा ३८ हे अमरसत्तम विष्णो !
 हे धर्मज्ञ ! जो पुरुष आपके वनाए हुए इस स्तोत्रसे मेरी भक्ति-
 पूर्वक स्तुति करेगा उसकी समरमें उत्तम पूजा होगी और जीत
 होगी और वह धर्मभागी होगा ॥ ३९ ॥ हे निष्पाप ! मैं यहाँ
 पर विन्वोदकेश्वर नामसे रहूँगा क्योंकि हे देवेश्वर देव ! तुमने
 मेरी यहाँ पर स्थापना करके अपनी प्रार्थना सफल कर ली
 है ॥ ४० ॥ हे जनार्दन केशव ! गहाँ पर तीन रात उपवास
 करके रहने वाला अधिलापित लोकोंको पावेगा ॥ ४१ ॥ और
 इस देशमें गंगाका नाम अविन्ध्या होगा और गंगाके स्मरण
 करनेके मंत्रका स्मरण कर स्नान करनेसे यहाँ पर गंगास्नानकी

(६५०) * महाभारत हरिवंशपर्व २ * [चतुःसप्ततितम

पट्पुरं नाम नगरं दानवानां जनार्दन । अत्रान्तर्धर्मणीदेशे
पराक्रम्य महाबलाः ॥ ४३ ॥ एते दैत्या दुरात्मानो जगतो देव-
संकटाः । ह्यन्ना वसन्ति गोविन्द सानावस्य महागिरेः ॥ ४४ ॥
अवध्या देवदेवानां वरेण ब्रह्मणोऽनघ । मानुषान्तरितस्तस्मान्त्व-
मेतान् जहि केशव ॥ ४५ ॥ एवमुक्त्वा महादेवस्तत्रैवान्तरधीयत ।
परिष्वज्य महात्मानं वामुदेवं जनाधिप ॥ ४६ ॥ ततो याते
सदादेवे मभानायां नराधिप । तस्यां निशार्या गोविन्द स्तूय पर्वत-
मब्रवीत् ॥ ४७ ॥ नवाधः पर्वतश्रेष्ठ निवसन्ति महासुराः । अवध्या
देवदेवानां वरेण ब्रह्मणः पुरा ॥ ४८ ॥ निर्गमिष्यन्ति तेनैव मया
रुद्रा महाबलाः । द्वारे निरुद्धे तत्रैव विनन्दयन्ति मगाज्ञया ४९
त्वयि सन्निहितश्राहं भविष्यामि महागिरे । अधिष्ठाय महा-

समान फल मिलेगा ॥ ४२ ॥ हे जनार्दन ! यहाँ पर पृथिवीके
भीतर दानवाँका पट्पुरनामक नगर है, वे महाबली यहाँ पर
पराक्रम करके रहते हैं ॥ ४३ ॥ यह दैत्य दुरात्मा हैं और जगत्
तथा देवताओंके लिये कंठक हैं, हे गोविन्द ! वे इस पर्वतके
शिखर पर छिपे हुये रहते हैं ॥ ४४ ॥ हे निष्पाप ! वे ब्रह्माजी
के वरदानके कारण देवताओंसे अवध्य हैं, हे केशव ! आप
मनुष्यशरीरसे भ्रच्छन्न हैं अत एव इनका संहार करिये ॥ ४५ ॥
हे राजन् ! महात्मा वामुदेवसे इसप्रकार कह कर और उनका
आलिंगन करके महादेवजी अन्तर्धान हो गए ४६ हे राजन् !
महादेवजीके चले जाने पर और रात्रि बीतकर मभात होने पर
गोविन्दने स्तुति करके पर्वतसे कहा; कि ॥ ४७ ॥ हे पर्वतश्रेष्ठ !
तुम्हारे नीचे बड़े भारी राक्षस निवास करते हैं, ब्रह्माजीने पहिले
उनको वरदान देदिया था, इस लिये वह देवदेवोंसे भी अवध्य
हैं ॥ ४८ ॥ यह महाबली गजग मेरे-रोकने पर उस मार्गसे
निकल जायेंगे और मेरी आज्ञासे द्वारके रुकने पर तहाँ नष्ट

योगान् निवन्त्यादि च पर्वत ॥ ३० ॥ आन्ध्र मूर्ति गद्रूपं हृद्वा
 पर्वतसत्तम । गोसहस्रपदानस्य क्लृप्तं प्राप्स्यति शाश्वतम् ५१
 त्वत्तोऽरमभिश्च प्रतिमां कारयित्वा हि गत्कृत । हृश्रूपान्त ये
 नित्यं मम यास्यन्ति ते गतिम् ॥ ५२ ॥ इति त पर्वत कृष्णो
 वरदे ऽनुग्रहीतवान् । तदा प्रभृति देवेशस्तत्र सन्निहितोऽच्युतः ५३
 पापाणः प्रतिमां तात कारयित्वा च कौरव । शुश्रूषन्ति कृता
 त्मानो विष्णुलोकाभिराक्षिणः ॥ ५४ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे
 कृष्णकृतशिवस्तुतिर्नाम चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥

वैशम्पायन उवाच । ततो रथवर कृष्णः समारुह्य महापनाः ।
 विन्वोदकेश्वर देवं नगस्कृत्य यगौ नृपः ॥ १ ॥ महेंद्रमाहगा-
 गास रथस्थो मधुसूदनः । सत्कृत पुष्कराभाशे सर्वदेवगणैः
 सह ॥ २ ॥ ततः शक्रो जगन्तोऽथ हरिभिर्द्युक्तमुजगम् । आरु

होजावेंगे ॥ ४६ ॥ हे महागिरे ! मैं महाघोर राजसोंका संहार
 कर तुम्हारे पासही निवास करूँगा ॥ ५० ॥ हे पर्वतसत्तम !
 जो पुरुष इस पर्वतके शिखर पर चढ़कर मेरे शाश्वत रूपको
 देखेगा उसको सहस्र'गोदानका फल मिलेगा ॥ ५१ ॥ जो पुरुष
 तुम्हारे पापाणोंसे मेरी प्रतिमा बनाकर भक्तिपूर्वक मेरी पूजा
 करेगा, वे मेरी गतिको प्राप्त होंगे ॥ ५२ ॥ वर देनेवाले कृष्णने
 इस प्रकार उस पर्वत पर अनुग्रह किया था, अच्युत श्रीकृष्ण
 उस दिनसे तहाँ पर सन्निहित रहते हैं ॥ ५३ ॥ विष्णुलोककी
 इच्छा रखने वाले पुरुषात्मा पुरुष तथा पापाणोंसे प्रतिमा बना
 उनकी सेवा करते हैं ॥ ५४ ॥ चौहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७४ ॥
 वैशम्पायनजीने कहा, कि-हे राजन्! तदनन्तर उदार मन वाले
 श्रीकृष्ण विन्वोदकेश्वरदेवसे प्रणाम करके श्रेष्ठ रथपर बैठ कर
 चल ॥ १ ॥ और पुष्करके समापमें देवताओंसे सत्कार पाते

रोह रथं देवः सर्वकामप्रदः सताम् ॥ ३ ॥ ततो रथस्थगोयुद्ध-
मभवत् कुहनन्दन । देवयोर्देवयोगेन पारिजातकृते तदा ॥ ४ ॥
ततोऽहनद्रणे विष्णुर्वाणैः शत्रुवल्लार्दनः । सैन्गानि देवराजस्य
वाणजालैरभिद्वगैः ॥ ५ ॥ उपेन्द्रं न महेंद्रोथ नैव विष्णुः सुरे-
श्वरम् । ताडयामासतुर्नीरौ शस्त्रैः शक्तावपि प्रभो ॥ ६ ॥ एकैक-
मश्वं दशभिर्महेन्द्रस्य जनार्दनः । विव्याध विशिखेस्तीक्ष्णैरस्त्र-
युक्तैर्जनेश्वर । शैव्याद्यानपि देवेन्द्रः शरैरमरसत्तगः । द्वादया-
मास राजेन्द्र घोरैरस्त्राभिमन्त्रितैः ॥ ८ ॥ स च वाणसहस्रैश्च
कृष्णो गजमवाकिरत् । गरुडं च महातेजा वल्लभिद्धरिवाहनम् ॥
भूषिष्ठाभ्यां रथाभ्यां तौ तदङ्गः शत्रुदारुणौ । युयुधाते महात्मा ॥
हुए महेंद्रको रथमें बैठे हुए श्रीकृष्णने बुलाया ॥ २ ॥ तदनन्तर
सज्जनोंकी सब कामनाओंको पूर्ण करने वाले देवराज इन्द्र
और जयन्त घोड़ोंसे जुते हुए उत्तम रथपर सवार होगए ॥ ३ ॥
हे कुहनन्दन ! उस समय पारव्ययोगसे पारव्यके कारण रथमें
बैठे हुए देवताओंमें युद्ध होने लगा ॥ ४ ॥ उस समय शत्रुओं
की सेनाओंका गर्दन करने वाले श्रीकृष्णने रथमें देवराजकी
सेनाओंको मूवेजान वाले वाणजालोंसे मारना आरम्भ कर
दिया ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! वे दोनों वीर सार्थ थे तब भी उपेन्द्रने
महेन्द्रको और विष्णुने इन्द्रको वाणोंसे ताडित नहीं किया व
हे जनेश्वर ! जनार्दनने महेन्द्रके एक २ घोड़ेको अस्त्र लगे हुए
तेज जाने वाले दस २ वाण मारे ७ हे राजेन्द्र ! देवताओंमें श्रेष्ठ
इन्द्रने भी शैव्यादि घोड़ोंको अभिमंत्रण किये हुये भयंकर अस्त्रों
से द्वादिया ८ श्रीकृष्णने सहस्रों वाणोंसे हाथीको द्वा दिया
और वल्लदैत्यका नाश करनेवाले महातेजस्वी हरिवाहन इन्द्रने
भी गरुडको वाणोंसे पाटदिया ६ शत्रुओंको विदीर्ण करनेवाले
वे दोनों महात्मा नारायण और देवताओंके राजा इन्द्र बड़े

नारायणसुराधिपौ ॥ १० ॥ चक्रम्पे वसुधा कृत्स्ना नौर्जलस्थेव
 भारत । दिशा दाहेन दिग्देशाः सम्भ्रताश्च सगन्ततः ॥ ११ ॥
 चेतुर्गिरिवशाश्च पेतुश्च शतशो द्रुगाः । पेतुश्च धरणीपृष्ठे मर्त्या
 धर्मगुणान्विताः ॥ १२ ॥ निर्याता शतशश्चान्ये पेतुस्तत्र नरा-
 धिप । ऊर्ध्व सरितः सर्वाः प्रतिलोतो विशाम्पने ॥ १३ ॥ विष्व-
 ग्वाता वसुधं पेतुर्लकाश्च निष्पभाः । मुहुर्मुहुर्भूतसंघा रथ-
 नादेन मोहिताः ॥ १४ ॥ मज्ज्वाल जले चैव वन्दिर्जनपदेश्वर ।
 युयुधुश्च ग्रहैः सार्धं ग्रहा नभसि सर्वतः ॥ १५ ॥ ज्योतींषि शतशः
 पेतुः स्वर्गाच्च धरणीतलम् । दिशा गजाः प्रकुपिता नागाश्च
 धरणीतले ॥ १६ ॥ गर्दभारुणसंस्थानैश्छिन्नाभ्रैश्चावृतं नभः ।
 विन्दद्भिर्महाराजानूत्तशोणितवर्षिभिः ॥ १७ ॥ न भूर्न द्यौर्न

बड़े रथोंमें बैठ कर युद्ध कर रहे थे १० हे भारत ! उस समय
 जलमें पड़ी गौकाकी समान सारी पृथिवी कांपने लगी और
 दिशाओंमें चारों ओर आग लगने लगी ॥ ११ ॥ पर्वत कांपने
 लगे, सैंकड़ों वृत्त गिर पड़े, धर्मात्मा पुरुष पृथिवी पर गिरने
 लगे १२ हे राजन् ! तहाँ पर सैंकड़ों उल्काएँ गिरने लगीं तथा
 हे राजन् ! सब नदियों अपने प्रवाहको उल्टा बहाने लगीं १३
 चारों ओरसे वायु चलने लगी प्रभारहित उल्काएँ गिरने लगीं
 और रथोंके नादसे मोहित होकर प्राणी चार २ मुन्न होने
 लगे ॥ १४ ॥ हे देशोंके स्वामी ! जलमें भी अग्नि जल उठी
 और आकाशमें भी चारों ओर ग्रह ग्रहोंके साथ लड़ने लगे १५
 स्वर्गमेंसे दृढ़कर सैंकड़ों तारे पृथिवीमें गिरने लगे दिग्भ्रज कुपित
 हो गए और पृथिवीतलके हाथी भी कोपमें भर गए ॥ १६ ॥
 गधेकी समान धूमर बर्णवाले और और लाल बर्णके मेघोंके
 ढुहड़ोंसे आकाश व्यागया वे बड़ागारी शब्द करने लगे और
 राज्ञसोंके द्वारा रक्त बरसाने लगे ॥ १७ ॥ उस समय उन दोनों

गगनं नरेन्द्र वृषभाभवन् । स्वस्थानि सुरवीरौ तु दृष्ट्वा युद्धगती
 तदा ॥ १८ ॥ जे मुर्मुनिगणा मन्त्रान् जगतो हितमाश्रया । ब्राह्म-
 णाश्च महात्मानो ह्यतिष्ठंस्तेषु सन्वराः ॥ १९ ॥ ततो ब्रह्मा महा-
 तेजाः कश्यपं वाचयमब्रवीत् । गच्छ बध्ना सहादित्या पुत्रौ वास्य
 सुव्रत ॥ २० ॥ स तथेति तदा देवमुक्त्वा पद्मभवं मुनिः । जगाम
 रथमास्थाय तस्थौ नरवरान्तके ॥ २१ ॥ स्थितं तु कश्यपं दृष्ट्वा
 सहादित्या तदान्तरा । उभौ रथाभ्यां धरणीगवतीणौ महा-
 वृत्तौ ॥ २२ ॥ न्यस्त्रशस्त्रौ च तौ वीरौ बबन्दतुरर्दिगौ पितरौ
 धर्मवर ज्ञौ सर्वभूनाहते रतौ ॥ २३ ॥ उभौ गृहीत्वा हस्ताभ्या-
 मदितिस्त्वब्रवीद्वचः । असोदराविर्भवं किमन्योन्यं हन्तुमिच्छतः
 स्वनामर्थं पुरस्कृत्य प्रवृत्तगतिदारुणम् । सदृशं नेति परगामि
 श्रेष्ठ देवनाओंको युद्धमें पहुँचा हुआ देखकर भूगि, स्वर्ग, आकाश
 तथा हे राजन् ! वृषभ भी स्वस्थ न रह सके ॥ १८ ॥ जगत्
 का हित करनेकी इच्छासे मुनि मंत्रोंका जप करने लगे और महा-
 त्मा ब्राह्मण भी तराके साथ उनके साथ ही जप करनेके बैठ
 गये ॥ १९ ॥ उस समय महातेजस्वी ब्रह्माजीने कश्यपजीसे
 कहा; कि- हे सुव्रत ! आग बहू अदितिके साथ ले जाकर दोनों
 पुत्रोंको युद्ध करनेसे रोक दीजिये २० उस समय कश्यपमुनि
 पद्मसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजीसे तथास्तु कहकर रथमें बैठ पुरुष-
 श्रेष्ठके पास चले २१ महावली श्रीकृष्ण और इंद्र कश्यप और
 अदितिके खड़ा हुआ देख कर रथमेंसे पृथिवी पर उतर
 आये २२ सब भूगोंके हिनमें तत्पर उन धर्म तत्त्वज्ञ अरिदमन
 वीरोंने शस्त्रोंको रख दिया ॥ २३ ॥ अदितिने उन दोनोंके
 हाँपोंसे पकड़ कर कहा, कि तुम दोनों सीतले भाईकी समान
 एक दूसरेके पक्षों मारना चाहते हो ॥ २४ ॥ धोड़ीसी ही बात
 के लिये तुम दोनोंमें दारुण संग्राम होने लगा परन्तु मैं इस बात

सर्वथा गम पुत्रगोः ॥ २५ ॥ श्रोतव्यं यदि गातुश्च पितुश्चैव
 मजापतेः । न्यस्त्रशस्त्रौ स्थितौ भूत्वा कुरुते वचनं मम ॥ २६ ॥
 तथेत्सुंक्त्वा च तौ देवौ स्नातुकामौ महाबली । गंगां जग्मतुरेवाथ
 मज्जन्यन्तौ परस्परम् ॥ २७ ॥ शक्र उवाच । त्वं मधुर्लोककृत्
 कृस्नराज्येहं स्थापितस्त्वया । स्थापयित्वा कथं नाम पुनर्मां व-
 म्भ्यसे ॥ २८ ॥ भ्रातृत्वमुपगम्यैव ज्येष्ठत्वं चाप्यपोह्य च । कथं
 कमलपत्रान्न निर्वाणं कर्तुमिच्छसि ॥ २९ ॥ स्नातौ तु जान्हवी-
 तोये पुनरभ्यागतौ नृप । यत्रादितिः कश्यपश्च महात्मानौ
 दृढव्रतौ ॥ ३० ॥ मियसंगमनं नाम तं देशं मुनयोऽवदन् । यत्र
 तौ संगतौ नोभौ पितृभ्यां कमलनेत्रौ ॥ ३१ ॥ ततः शक्रस्य
 कौरव्य दत्त्वा वानाभयं तदा । यत्र देवगणाः सर्वे समेता धर्म-

को अपने पुत्रोंके अनुकूल किसी प्रकार भी नहीं समझी २५
 यदि तुम अपनी माता और पिता मजापतिके वचनको सुनने
 योग्य समझते हो तो तुम शस्त्रोंको त्याग कर मेरे वचनको
 गानो २६ तब वे दोनों महाबली देव " तथास्तु " कहनेके उपरान्त
 परस्पर बातचीत करते हुए स्नान करनेके लिये गंगाजीको चले
 गए २७ इन्द्रने कहा, कि हे मधो ! आप सब लोकोंको रचने
 वाले हैं आपने ही मुझे सारे राज्य पर स्थापित किया है आप
 मुझे स्थापित करके फिर मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं २८
 हे कमलपत्रान्न ! तुम भाई होकर भी ज्येष्ठताका कुछ भी ख्याल न
 कर सब बातोंकी समाप्ति क्यों करना चाहते हो २९ हे राजन् !
 वे दोनों दृढव्रत महात्मा गंगाजीमें स्नान करनेके अनन्तर अदिति
 और कश्यपके पास पहुँच गए ३० वे दोनों कमलनेत्र जहाँ पर
 अपने माता पितासे मिले थे उस देशको मुनि मियसङ्गमन नामक
 देश कहते हैं ३१ हे कौरव्य ! जहाँ पर सब धर्मचारी देवता
 इकट्ठे हो रहे थे तहाँ पर श्रीकृष्णने इन्द्रको अभयदान दिया ३२

चारिणः ॥ ३२ ॥ ततो गयुर्विमानैस्तु देवाः सर्वे त्रिविष्टपम् ।
 अद्भ्या परमगा युक्तास्तेषामेवानुरूपया ॥ ३३ ॥ कश्यपश्चा-
 दिनिश्चैव तथा शक्रजनार्दनी । विमानमेकगारुह्य गता राजंस्त्रि-
 विष्टपम् ॥ ३४ ॥ ते शकमदनं प्राप्ता रम्यं -सर्वागुणान्वितम् ।
 ऊपरेकत्र कौरव्य मुदिता धर्मचरिणः ॥ ३५ ॥ शची तु कश्यपं
 पत्न्या सहितं धर्मवत्सला । उपाचरन् महात्मानं सर्वाभूतहिते
 रतम् ॥ ३६ ॥ ततस्तस्यां प्रभातार्या रजन्यामन्नचीद्धरिम् । अ दिति-
 र्धर्मवत्त्वज्ञा सर्वाभूतं हितं वचः ॥ ३७ ॥ उपेन्द्र द्वारकां गच्छ पारि-
 जातं नयस्व च । बध्वा समापगम्वेश पुण्यकं हृदये स्थितम् ३८
 पुण्यके सत्यया प्राप्ते पूनरेप त्वया तरुः । नन्दने पुरुषश्रेष्ठ स्थाप्यः
 स्थाने यथोचिते ॥ ३९ ॥ एवमस्तिवति कृष्णेन देवमाता यश-

तदनन्तर सब देवता अपने अनुकूल परम शोभासे सम्पन्न हो
 विमानोंमें बैठ कर स्वर्गको चले गए हे राजन् ! उस समय कश्यप
 अदिति इन्द्र और जनार्दन एक ही विमान पर बैठकर स्वर्गको
 चले ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ हे कौरव्य ! सब गुणोंसे युक्त रमणीय
 इन्द्रधनुषमें पहुँचनेके उारान्त ये धर्मात्मा प्रमन्न होकर एक स्थान
 पर बैठे ३५ धर्मवत्सला उन्द्राणी सब भूनोंके हितमें तत्पर महात्मा
 कश्यप और उनकी स्त्रीकी सेवा करने लगी ३६ धर्मके तत्त्वको
 जानने वाली अदितिने रात बीत कर प्रातः काल होने पर
 श्रीकृष्णसे सब प्राणियोंका कल्याण करने वाला वाक्य कहा,
 कि-३७ हे उपेन्द्र ! अब तुम पारिजातको लेकर द्वारकाको जाओ
 और हे ईश ! बधूके हृदयमें स्थित पुण्यक व्रतके उत्सवको
 करो ३८ जब सत्यभाषा पुण्यकव्रत कर चुके तब हे पुरुषश्रेष्ठ !
 तुम इस पारिजातको नन्दनवनमें यथोचित स्थान पर ही स्थापित
 कर देना ३९ महात्मा नारदजीने जिसको धर्मके गुणोंसे युक्त
 बताया था उस यशस्विनी देवमातासे श्रीकृष्णने कहा, कि-

स्विनी । उक्ता धर्मगुणैर्युक्ता नारदेन महात्मना ॥ ४० ॥
 ततोऽभिवाद्य पितरं मातरं च जनार्दनः । महेन्द्रं सह शच्याऽथ
 प्रतस्थे द्वारकां प्रति ॥ ४१ ॥ ददौ कृष्णाय पौलोमी नियोगान्
 कुरुनन्दन । सर्वासामेव कृष्णस्य भार्याणां धर्मचारिणी ॥ ४२ ॥
 दिव्यानां सर्गरत्नानां वाससां च मनस्विनी । नानारागविर-
 क्तानां सदैवारजसामपि ॥ ४३ ॥ भार्याणां च सहास्रणि यानि
 षोडश माधवे । प्रतिगृह्य महातेजाः प्रययौ द्वारकां प्रति ॥ ४४ ॥
 सम्पूज्यमानो द्युतिमान् खेचरैः पुण्यकर्मभिः । स सात्यकिः स-
 पुत्रश्च मातो रैवतकं गिरिम् ॥ ४५ ॥ स तत्र स्थापयित्वा च पारि-
 जातं वरद्रुमम् । सत्यकं प्रेषयामास द्वारकां द्वारशालिनीम् ४६
 श्रीकृष्ण उवाच । पारिजातमिहानीतं महेन्द्रसदनान्मया । निवे-

चहुंन अच्छा ४० तदनन्तर श्रीकृष्ण अपने माता पिताको और
 इन्द्राणी सहित इन्द्रको मणाम करके द्वारकाको चलने लगे ४१
 हे कुरुनन्दन ! उस समय धर्मचारिणी इन्द्राणीने कृष्णकी सब
 स्त्रियोंके लिये कृष्णको विद्रिपे (प्रेमपूर्वक दिये जाने वाले
 पदार्थ) दिये ॥ ४२ ॥ उस मनस्विनीने दिव्य रत्न और कभी
 मलिन न होने वाले अनेक रत्नोंसे रंगे हुए वस्त्र भी दिये ४३
 इस प्रकार उसने माधवकी सोलह सहस्र रानियोंके लिए (प्रेम
 दिखानेके लिये वस्तुएँ दी) महातेजस्वी श्रीकृष्ण उनको ग्रहण
 कर द्वारकापुरीको चले ४४ आकाशचारी पुण्यात्मा व्यक्तियोंसे
 सत्कार पाते हुए कान्तिवान् श्रीकृष्ण और सात्यकि तथा मद्युम्न
 रैवतकंपर्वत पहुँच गए ॥ ४५ ॥ श्रीकृष्ण तहाँ पर श्रेष्ठ वृक्ष
 पारिजातको रख कर द्वार वाली द्वारकाको सात्यकिसे भेजने
 लगे ॥ ४६ ॥ श्रीकृष्णने कहा कि—हे भीमर्षाशर्मे उत्पन्न होने
 वाले यादवोंको धराने वाले महाभुज सात्यकि ! तुम भीमवंशियों
 से निवेदन करो, कि—मैं महेन्द्रके भवनसे यहाँ पर पारिजातको ले

तस्माद्धि त्वामीश्वरं पूहुरीशं सन्तो विद्वांसः सर्वशास्त्रार्थ-
 तज्ज्ञाः ॥ २४ ॥ भूतं यस्माज्जगदत्यन्तधीर त्वत्तोऽव्यक्तादक्षरा-
 दक्षरेश । तस्मान्त्वामाहुर्भव इत्येव/भूतं सर्वेश्वराणां महतामप्यु-
 दारम् ॥ २५ ॥ यस्माज्जनतैरभिषिक्तोसि सर्वैर्देवासुरैः सर्वभूतैश्च
 श्वेव । महेश्वरं विश्वकर्माणमाहुस्त्वां वी सर्वे तेन देवातिदेवम् २६
 पूज्यो देवीः पूज्यसे नित्यदा वी शंश्चद्ध्येयः काङ्क्षिभिर्वरदागोघ-
 वीर्यः । तस्माद्विख्यातो भगवान् देवदेवः सतामिष्टः सर्वभूतात्म-
 भावी ॥ २७ ॥ भूमिन्नपाणां देव यस्मात् गतिष्ठां पुनर्लोकानां
 भावनामेवकीर्तिः । व्यम्बकेति प्रथमं तेन नाम त्वापमेव त्रिदशेश

आपको इसी लिये ईश्वर कहते हैं, कि आप बड़े २ ईश्वरोंके
 भी स्वामी आद्य और प्रीति तथा प्राणका दान करनेवाले हैं २४
 हे अक्षरेश ! अर्थात् हे जीवोंके ईश ! अव्यक्त अर्थात् जीवकी
 समान अप्रसिद्ध आप अक्षरसे ही जगत् उत्पन्न हुआ है और
 आपमें ही लीन होजाता है इस लिये ही आप सब ईश्वरोंके भी
 कारण और उदारव्यक्तिको भव कहते हैं २५ आपने जीते हुए
 सब देवता असुर और भूतोंसे अभिषेक कराया था इस लिये ही
 आपको देवाधिदेव विश्वकर्मा और महेश्वर कहते हैं (वात यह है
 श्रीकृष्णने शिवसे अपनी अभिन्नता दिखानेके लिये अपने
 ही राजगभिषेकका वर्णन किया है) २६ आप पूज्य हैं देवता-
 सर्वादा आपकी ही पूजा करते हैं इच्छा रखने वाले पुरुषोंका
 आपको सर्वादा ध्यान रखना चाहिये और हे वरद ! आपका
 वीर्य अगोघ है इसी लिये आप भगवान् देवदेवासज्जननोंके इष्ट
 और सब भूतोंकी आपनेमें भावना करनेके स्वभाव वाले प्रसिद्ध
 हैं २७ हे देवा आप भूमिआदि तीनोंके अर्थात् भूमि अन्तरिक्ष स्वर्ग
 अथवा प्राण अपान व्यान अथवा अग्नि वायु सूर्य अथवा भूत
 भविष्यत् वर्तमान आदिके प्रतिष्ठा अर्थात् लगस्थान हैं और

नाथ ॥ २८ ॥ शर्वः शत्रुणां शासनादप्रमेयस्तथा भूयः शास-
नाच्चेश्वरेण । सर्वव्यापित्वाच्छकरत्वाच्च सद्भिः । शब्दस्ये-
शानः श्रीकरार्कात्प्रतेजाः ॥ २९ ॥ संसक्तानां नित्यदा यत् करोषि
शमं भ्रातृव्यान्वद्यनैपीः समस्तान् । तस्माद्देवः शंकरोऽस्य
प्रमेयः सद्भिर्धर्मज्ञैः कथ्यसे सर्वनाथः ॥ ३० ॥ दत्तः पृथारः
कुलिशेन पूर्वं तवेशान सुरराज्ञातिवीर्यं । वण्डे नैर्घ्यं तन ते यत्
पृच्छं तस्मात् ख्यातस्त्वं नीलकण्ठेऽतिवक्ष्यः ॥ ३१ ॥ यच्छ्लिगां कं

लोकोंके उत्पत्ति कारण है इस लिये हे अप्रमेय ! हे देवताओंके
ईशोंके स्वामी! आपका प्रथम नाम ब्रह्म है २८ आप शत्रुओंके
शर्मा अर्थात् संहारक है और शासन करने पर शत्रुओंसे
अप्रमेय अर्थात् अक्षय्य है और फिर ईश्वर स्वरूपसे अर्थात्
राजादिभावसे शासन करनेके कारण, सर्वव्यापी होनेके कारण
अर्थात् भीतर बाहर व्यापक होनेके कारण और सज्जनोंका
कल्याण करनेके कारण शब्दके ईशान अर्थात् सब शब्दोंके प्रमे-
यत्वरूपसे अवच्छेदक है शीकर है अर्थात् 'अनः सामानि
यजूषि सा हि श्रीरमृता सताम्' और "एपास्य परमा सपत्"
इन दोनों श्रुतिगोसे श्रीशब्दान्य पर और अपर दोनों विद्याओं
के करने वाले है और सूर्यसे भी अधिक तेजके प्रकाशक है २९
आप अपने भक्त देवताओंको सुख देने वाले है और आप उन
के सम्पूर्ण शत्रुओंको नाश करते है इसी लिये आपको धर्मज्ञ
सज्जन शंकर अप्रमेय और सर्वनाथ कहते है ॥ ३० ॥ हे ईशान !
हे अतिवीर्य ! पहले देवताओंके स्वामीने आपके कुलिश मारा
था आपने उसकी नीलगाँवो अपने कठमें धारण कर रखा है
आपने अतिसमर्थ होने पर भी ऐसा किया था (अर्थात् आप
उस नीलगाँवको दूर करसकते थे तब भी आपने ब्रह्म और चक्र
का धारण न हो इस कारण और प्रहार करने वाले का यश

(६४८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [चतुःसप्ततितम

यच्च लोके भर्गाकं सर्वं सोगत्वं स्थावरं जङ्गमं च । माहुर्विपा-
स्त्वां गुणिनं तत्त्वविज्ञास्तथाध्येयामं विकां लोकनात्रीम् ॥ ३२ ॥
वैद्विगीता सा हि तत् । प्सूता यज्ञो दीक्षाणां योगिनां चातिरूपाः ।
नात्पद्भुतं त्वत्समं देवभूतं भूतं भव्यं भव देवाथ नास्ति ॥ ३३ ॥
अहं ब्रह्मा कपिलो योष्यन्तः पुत्राः सर्वे ब्रह्माणश्चातिवीराः ।
त्वत्तः सर्वे देवदेव प्सूता एतां सर्वेशः कारणात्मा त्वमीदृशः ३४
इति संस्तुगमानस्तु भगवान् गोवृषध्वजः । प्सार्य दक्षिणं हस्तं
नारायणमथाब्रवीत् ॥ ३५ ॥ मनीषितानामर्थानां प्राप्तित्ते सुर-
सत्तम । पारिजातं च हर्तासि मा भूते मनसो व्यथा ॥ ३६ ॥

फैले इस कारण अपने कण्ठमें नीलिमा धारण ही कररखी ऐसे
पहाकारुणिक आप मेरी भी रक्षा करिये) ३१ संसारमें जो
लिङ्गांकित पदार्थ है और जो भर्गांकित पदार्थ है वे स्थावर जंगम
रूप सब पदार्थ उमासहित आप ही हैं इसी लिये तत्त्वको जानने
वाले ब्राह्मण आपको गुणवान् और पाठ करने योग्य और लोकोंकी
माता अम्बिकाको (गुणत्रयरूपा प्रकृति) कहते हैं ३२ उनका वेदोंने
(अत्रामेकां लोहितकृष्णरूपाम् इत्यादि) श्रुतिओंसे गान किया है
और मायातत्त्वको अर्थात् महान्को उत्पन्न किया है आप
दीक्षितोंके लिये यज्ञस्वरूप और योगियोंके लिये अतिरूप है
हे देव ! आपकी समान अद्भुत देव न कोई है न कोई हुआ है
और न कोई होगा ॥ ३३ ॥ मैं कपिल अनन्त ब्रह्मा और
ब्रह्माजीके अतिवीर अर्थात् आभ्यन्तरिक शत्रुओंको जीतनेवाले
सनक अदि पुत्र हे देव ! यह सब आपसे ही उत्पन्न हुए
हैं इस प्रकार आप सर्वेश कारणात्मा और पूजनीय हैं ३४
इस प्रकार स्तुति करने पर ध्वजामें बड़ेपारी वृषभको धारण
करने वाले भगवान् शिव अपने दाहिने हाथको फैला कर नारा-
यणसे बहने लगे, कि-३५ हे सुरसत्तम ! आपको आपके मन

यथा मैनाकमाश्रित्य तपस्त्वमकरोः प्रभो । तथा गम वरं कृष्ण
 संस्पृश्यं स्थैर्याप्नुहि ॥ ३७ ॥ अवध्यस्त्वगजेयश्च मत्तः शुरतर-
 स्तथा । भवितासीत्यवोचं यत्तत्तथा न तदन्यथा ॥ ३८ ॥ यश्च
 स्तवेन मां भक्त्या स्तोष्यतेऽगरसत्तत्तम । त्वया कृतेन धर्मज्ञ धर्म-
 भाक् सम्भविष्यति । सगरे च जग विष्णो पाप्य पूजां तथोत्त-
 माम् ॥ ३९ ॥ विन्वोदकेश्वरो नाम भविताऽहमिहानघ । देवे-
 श्वर त्वयाऽस्थापि देव सिद्धोपयाचनः ॥४०॥ इहस्थोपोपितो
 विद्वान् भक्तिगान् मम केशव । त्रिरात्रमीप्सितान् लोकान् गमि-
 ष्यति जनार्दन ॥ ४१ ॥ अविन्ध्या नाम देशोऽस्मिन् गंगा चैवं
 भविष्यति । गंगास्नानसमं स्नानं मन्त्रतो भविता तथा ॥४२॥

चाहे पदार्थ मिलेंगे और आप पारिजातको छीनकर लेजाएँगे
 अतः आप अपने मनमें कष्ट न पाइये ३६ हे प्रभो ! आपने जिस
 प्रकार मैनाकपर्जनका आश्रय लेकर तपश्चर्याकी थी उसी प्रकार
 हे कृष्ण ! आप मेरे वरका स्मरण करके धैर्य धरिये ३७ तुम
 अवध्य और अजेय हो और मुझसे भी शूर हो (यह बात बाणा-
 सुर युद्धमें प्रकट होगी) मैंने, जो बात कह दी है वह उसी प्रकार
 हांगी उसमें कुछ भेद नहीं होगा ३८ हे अमरसत्तम विष्णो !
 हे धर्मज्ञ ! जो पुरुष आपके बनाए हुए इस स्तोत्रसे मेरी भक्ति-
 पूर्वक स्तुति करेगा उसकी समरमें उत्तम पूजा होगी और जीत
 होगी और वह धर्मभागी होगा ॥ ३९ ॥ हे निष्पाप ! मैं यहाँ
 पर विन्वोदकेश्वर नामसे रहूँगा क्योंकि हे देवेश्वर देव ! तुमने
 मेरी यहाँ पर स्थापना करके अपनी प्रार्थना सफल कर ली
 है ॥ ४० ॥ हे जनार्दन केशव ! यहाँ पर तीन रात उपवास
 करके रहने वाला अभिलाषित लोकोंको पावेगा ॥ ४१ ॥ और
 इस देशमें गंगाका नाम अविन्ध्या होगा और गंगाके स्मरण
 करनेके मंत्रका स्मरण कर स्नान करनेसे यहाँ पर गंगास्नानकी

(६५०) * महाभारत हरिबंशपर्व २ * [चतुःसप्ततितम

पट्पूरं नाम नगरं दानवानां जनार्दन । अत्रान्तर्ध्वग्मीदेशे
पराक्रम्य महाबलाः ॥ ४३ ॥ एते दैत्या दुरात्मानो जगतो देव-
संकटाः । ज्यन्ता वसन्ति गोविन्द सानावस्य महागिरेः ॥ ४४ ॥
अवभ्या देवदेवानां वरेण ब्रह्मणोऽनघ । मानुषान्तरितस्तस्मान्त्व-
मेतान् जहि केशव ॥ ४५ ॥ एवमुक्त्वा महादेवस्तत्रैवान्तरधीयत ।
परिष्वज्य महात्मानं वामुदेवं जनाभिष ॥ ४६ ॥ ततो याते
सदादेवे पभातायां नराधिप । तस्या निशार्या गोविन्दस्तुय पर्वत
भवतीत् ॥ ४७ ॥ नचापः पर्वतश्रेष्ठ निवसन्ति महासुराः । अवभ्या
देवदेवानां वरेण ब्रह्मणः पुरा ॥ ४८ ॥ निर्गमिष्यन्ति तेनैव मया
रुद्रा महाबलाः । द्वारे निरुद्धे तत्रैव विनन्दयन्ति मयाज्ञया ४९
त्वयि सन्निहितभ्राह्मं भविष्यामि महागिरे । अधिष्टाय महा-

समान फल मिलेगा ॥ ४२ ॥ हे जनार्दन ! यहाँ पर पृथिवीके
भीतर दानवोंका पट्पूरनामक नगर है, वे महाबली यहाँ पर
पराक्रम करके रहते हैं ॥ ४३ ॥ यह दैत्य दुरात्मा है और जगत्
तथा देवताओंके लिये कंठक है, हे गोविन्द ! वे इस पर्वतके
शिखर पर छिपे हुये रहते हैं ॥ ४४ ॥ हे निष्पाप ! वे ब्रह्माजी
के वरदानके कारण देवताओंसे अव्यग हैं, हे केशव ! आप
मनुष्यशरीरसे भञ्जन्न हैं अत एव इनका संहार करिये ॥ ४५ ॥
हे राजन् ! महान्मा वामुदेवसे इसप्रकार कह कर और उनका
आलिङ्गन करके महादेवजी अन्तर्धान हो गए ४६ हे राजन् !
महादेवजीके चले जाने पर और रात्रि चीतकर प्रभात होने पर
गोविन्दने स्तुति करके पर्वतसे कहा; कि ॥ ४७ ॥ हे पर्वतश्रेष्ठ !
तुम्हारे नीचे बड़े भारी राजस निवास करते हैं, ब्रह्माजीने पहिले
उनको वरदान देदिया था, इस लिये वह देवदेवोंसे भी अव्यग
हैं ॥ ४८ ॥ यह महाबली राजस मेरे रोकने पर उस मार्गसे
निष्कल जायेंगे और मेरी आज्ञासे द्वारके रुकने पर तहाँ नष्ट

घोगान् निवत्सगामि च पर्वत ॥ ३० ॥ आकृत मूर्त्तिगद्गं हृद्वा
 पर्वतसत्तम । गोमहस्रपदानस्य फलं प्राप्ति शश्वनम् ५१
 त्वत्तोऽश्मभिश्च प्रतिमां कारयित्वा हि भक्तिन । शुश्रूषयन्ति ये
 नित्यं मम यास्यन्ति ते गतिम् ॥ ५२ ॥ इति त पर्वत कृष्णो
 वरदे ऽनुश्रीतवान् । तदा प्रभृति देवेशस्तत्र सन्निहितोऽच्युतः ५३
 पाषाणः प्रतिमां तात कारयित्वा च कौरव । शुश्रूषन्ति कृता-
 त्मानो निष्णुल्लोकाभिकाञ्छिणः ॥ ५४ ॥

इति श्रीमहाभारते बिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे
 कृष्णकृतशिवस्तुतिर्नाम चतु.सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥

वैशम्पायन उवाच । ततो रथवर कृष्णः समारूढ महागणाः ।
 विज्ज्वोदकेश्वर देवं नमस्कृत्य ययौ तृणः ॥ १ ॥ महेंद्रमाहगा-
 गास रथस्थो मधुमूदनः । सत्कृत पुष्कराभाशो सदैवगणैः
 सह ॥ २ ॥ ततः शक्रो जगन्तोऽथ हविर्भिर्युक्तमुनयम् । आरु

होजावेंगे ॥ ४६ ॥ हे महागिरे ! मैं महाघोर राक्षसोंका संहार
 कर तुम्हारे पासही निवास करूँगा ॥ ५० ॥ हे पर्वतसत्तम !
 जो पुरुष इस पर्वतके शिखर पर चढ़कर मेरे शाश्वत रूपको
 देखेगा उसको सहस्र गोदानका फल मिलेगा ॥ ५१ ॥ जो पुरुष
 तुम्हारे पाषाणोंसे मेरी प्रतिमा बनाकर भक्तिपूर्वक मेरी पूजा
 करेगा, वे मेरी गतिको प्राप्त होंगे ॥ ५२ ॥ वर देनेवाले कृष्णने
 इस प्रकार उस पर्वत पर अनुग्रह किया था, अच्युत श्रीकृष्ण
 उस अदनसे तहाँ पर सन्निहित रहते हैं ॥ ५३ ॥ विष्णुलोककी
 इच्छा रखने वाले पुरुषात्मा पुरुष तथा पाषाणोंसे प्रतिमा बना
 उनकी सेवा करते हैं ॥ ५४ ॥ चौदहत्तमोऽध्याय समाप्त ॥ ७४ ॥
 १) वैशम्पायनजीने कहा, कि-हे राजन्! तदनन्तर उदार मन वाले
 श्रीकृष्ण विज्ज्वोदकेश्वरदेवका प्रणाम करने श्रेष्ठ रथपर बैठ कर
 चल ॥ १ ॥ और पुरुषके समापमें देवताओंसे सत्कार पाते

रोह रथं देवः सर्वकामप्रदः सताम् ॥ ३ ॥ ततो रथस्थयोर्युद्ध-
मभवत् कुरुनन्दन । देवयोर्देवयोगेन पारिजातकृते तदा ॥ ४ ॥
ततोऽह्नद्रणे विष्णुर्वायुः शत्रुवल्लार्दनः । सैन्यानि देवराजस्य
वाणजालैरग्निद्वारैः ॥ ५ ॥ उपेन्द्रं न महेंद्रोथ नैव विष्णुः सुरे-
स्वरम् । ताडयामासतुर्वीरौ शस्त्रैः शक्तावपि प्रभो । ६ ॥ एकैक-
मश्वं दशभिर्महेंद्रस्य जनार्दनः । विव्याध विशिखेस्तीक्ष्णैरस्त्र-
युक्तैर्जनेश्वर । शैव्याद्यानपि देवेन्द्रः शरैरपरसत्तपः । द्वादशा-
मास राजेन्द्र घोरेरस्त्राभिमन्त्रितैः ॥ ८ ॥ स च वाणसहस्रैश्च
कृष्णो गजमवाकिरत् । गरुडं च महातेजा बलभिद्धरिवाहनम् ६
भूयिष्ठाभ्यां रथाभ्यां तां तदङ्गः शत्रुदारुणौ । युयुधाते महात्मा तौ
हुए महेंद्रको रथमें बैठे हुए श्रीकृष्णने बुलाया ॥ २ ॥ तदनन्तर
सज्जनोंकी सब कामनाओंको पूर्ण करने वाले देवराज इन्द्र
और जयन्त घोड़ोंसे जुते हुए उत्तम रथपर सवार होगए ॥ ३ ॥
हे कुरुनन्दन ! उस समय मारव्ययोगसे मारव्यके कारण रथमें
बैठे हुए देवताओंमें युद्ध होने लगा ॥ ४ ॥ उस समय शत्रुओं
की सेनाओंका गर्दन करने वाले श्रीकृष्णने रथमें देवराजकी
सेनाओंको मूवेगाने वाले वाणजालोंसे मारना आरम्भ कर
दिया ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! वे दोनों वीर सार्थ थे तब भी उपेन्द्रने
महेंद्रको और विष्णुने इन्द्रको बाणोंसे ताड़ित नहीं किया व
हे जनेश्वर ! जनार्दनने महेंद्रके एक २ घोड़ेको अस्त्र लगे हुए
तेज जाने वाले दस २ वाण मारे ७ हे राजेन्द्र ! देवताओंमें श्रेष्ठ
इन्द्रने भी शैव्यादि घोड़ोंको अभिमरण किये हुए भयंकर अस्त्रों
से द्वादशा ८ श्रीकृष्णने सहस्रों वाणोंसे हाथीको द्वा दिया
और बलदैत्यका नाश करनेवाले महातेजस्वी हरिवाहन इन्द्रने
भी गरुडको वाणोंसे पाटदिया ६ शत्रुओंको विदीर्ण करनेवाले
वे दोनों महात्मा नारायण और देवताओंके राजा इन्द्र बड़े

नागागणसुराधिपौ ॥ १० ॥ चकम्पे वसुधा कृत्स्ना नौर्जलस्थेव
 भारत । दिशा दाहेन दिग्देशाः सम्प्रताश्च सगन्ततः ॥ ११ ॥
 चेलुर्गिरिवराश्व पेतुश्च शतशो द्रुगाः । पेतुश्च धरणीपृष्ठे मर्त्या
 धर्मगुणान्विताः ॥ १२ ॥ निर्घाता शतशश्चान्ये पेतुस्तत्र नरा-
 धिप । ऊ३श्च सरितः सर्वाः प्रतिस्रोतो विशाम्पने ॥ १३ ॥ विष्व-
 म्वाता वसुश्च पेतुरुक्काश्च निष्पन्नाः । मुहुर्मुहुर्भूतसंघा रथ-
 नादेन मोहिताः ॥ १४ ॥ मज्ज्वाल जले चैव बन्धिर्जनपदेश्वर ।
 युयुधुश्च ग्रहैः सार्धं ग्रहा नभसि सर्वतः ॥ १५ ॥ ज्योतींषि शतशः
 पेतुः स्वर्गाच्च धरणीतलम् । दिशा गजाः प्रकुपिता नागाश्च
 धरणीतले ॥ १६ ॥ गर्दभारुणसंस्थानैच्छिन्नाश्चैवावृतं नभः ।
 विनदद्भिर्महारावानूत्तशोणितवर्षिणिः ॥ १७ ॥ न भूर्न घूर्न

वड़े रथोंमें बैठ कर युद्ध कर रहे थे १० हे भारत ! उस समय
 जलमें पड़ी नौकाकी समान सारी पृथिवी कांपने लगी और
 दिशाओंमें चारों ओर आग लगने लगी ॥ ११ ॥ पर्वत कांपने
 लगे, सैंकड़ों टूट गिर पड़े, धर्मात्मा पुरुष पृथिवी पर गिरने
 लगे १२ हे राजन् ! तहाँ पर सैंकड़ों उक्काएँ गिरने लगीं तथा
 हे राजन् ! सब नदियों अपने प्रवाहको उल्टा बहाने लगीं १३
 चारों ओरसे वायु चलने लगी प्रभारहित उक्काएँ गिरने लगी
 और रथोंके नादसे मोहित होकर प्राणी वार २ मुन्न होने
 लगे ॥ १४ ॥ हे देशोंके स्वामी ! जलमें भी अग्नि जल उठी
 और आकाशमें भी चारों ओर ग्रह ग्रहोंके साथ लड़ने लगे १५
 स्वर्गमेंसे टूटकर सैंकड़ों तारे पृथिवीमें गिरने लगे दिग्मज्ज कुपित
 हो गए और पृथिवीतलके हाथी भी कोपमें भर गए ॥ १६ ॥
 गधेकी समान धूसर बर्णवाले और और लाल बर्णके मेघोंके
 टुकड़ोंसे आकाश छागया वे बड़ापारी शब्द करने लगे और
 राक्षसोंके द्वारा रक्त बरसाने लगे ॥ १७ ॥ उस समय उन दोनों

गगनं नरेन्द्र वृषभाभवन् । स्वस्थानि सुरवीर्यै तु दृष्ट्वा युद्धगतौ
 तदा ॥ १८ ॥ जे मुर्मुनिगणा मन्त्रान् जगतो हितमाभ्या । ब्राह्म-
 णाश्च महात्मानो ह्यतिष्ठंस्तेषु सन्वराः ॥ १९ ॥ ततो ब्रह्मा महा-
 तेजाः कश्यपं वाच्यमब्रवीत् । गच्छ बध्वा सहादित्या पुत्रौ वारय
 सुव्रत ॥ २० ॥ स तथेति तदा देवमुक्त्वा पद्मभवं मुनिः । जगाग
 रभमास्थाय तस्थौ नरवरान्तिके ॥ २१ ॥ स्थितं तु कश्यपं दृष्ट्वा
 सहादित्या तदान्तरा । उभौ रथाभ्यां धरणीभवतीर्णौ महा-
 वली ॥ २२ ॥ न्यस्त्रशस्त्रौ च तौ वीरौ वनन्दतुरन्दिमौ पितरौ
 धर्मतश्च ज्ञौ सर्वभूतहिते रतौ ॥ २३ ॥ उभौ गृहीत्वा हस्ताभ्या-
 मदितिस्त्ववनीद्रुचः । असोदराविर्बोवं किमन्योन्य इ-तुमिच्छतः
 स्वल्पाभर्थ पुरस्कृत्य मष्टत्तगतिदारुणम् । सदृशं नेति पश्यामि
 श्रेष्ठ देवताओंको युद्धमें पहुँचा हुआ देखकर भूमि, स्वर्ग, आकाश
 तथा हे राजन् ! वृषभ भी स्वस्थ न रह सके ॥ १८ ॥ जगत्
 का हित करनेकी इच्छासे मुनि मर्त्रोंका जप करने लगे और महा-
 त्मा ब्राह्मण भी त्तराके साथ उनके साथ ही जप करनेके बैठ
 गये ॥ १९ ॥ उस समय महातेजस्वी ब्रह्माजीने कश्यपजीसे
 कहा, कि-हे सुव्रत ! आप बहू अदितिको साथ ले जाकर दोनों
 पुत्रोंको युद्ध करनेसे रोक दीजिये २० उस समय कश्यपमुनि
 पद्मसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजीसे तथास्तु कहकर रथमें बैठ पुरुष-
 श्रेष्ठके पास चले २१ महावली श्रीकृष्ण और इंद्र कश्यप और
 अदितिको खड़ा हुआ देख कर रथमेंसे पृथिवी पर उतर
 आये २२ सब भूतोंके हितमें तत्पर उन धर्म तत्त्वज्ञ अरिदमन
 वीरोंने शस्त्रोंको रख दिया ॥ २३ ॥ अदितिने उन दोनोंके
 हाथोंसे पकड़ कर कहा, कि तुम दोनों सौतेले भाईकी समान
 एक दूसरेको क्यों मारना चाहते हो ॥ २४ ॥ थोड़ासी ही बात
 के लिये तुम दोनोंमें दारुण संग्राम होने लगा परन्तु मैं इस बात

सर्वथा गम पुत्रगोः ॥ २५ ॥ श्रोतव्यं यदि पातुश्च पितुश्चैत्र
 मजापतेः । न्यस्त्रशस्त्रौ स्थितौ भूत्वा कुरुतं वचनं मम ॥ २६ ॥
 तथेत्पुत्रेस्वा च तौ देवी स्नातुकामौ महावर्त्ता । गंगां जम्पतुरेवाथ
 मजन्पन्तां परस्परम् ॥ २७ ॥ शक्र उवाच । त्वं मधुर्लोककृत्
 कृस्नराज्येऽं स्थापितस्त्वया । स्थापयित्वा कथं नाम पुनर्मां व-
 म्भ्यसे ॥ २८ ॥ भ्रातृत्वमुपगम्यैव ज्येष्ठत्वं चाप्यगोह्य च । कथं
 कमलपत्रान्त निर्वाणं कर्तुमिच्छसि ॥ २९ ॥ स्नातौ तु जान्हवी-
 तोये पुनरभ्यागतौ नृप । यत्रादितिः कश्यपश्च महात्मानौ
 दृढव्रतौ ॥ ३० ॥ प्रियसंगमनं नाम तं देशं मुनिगोऽवदन् । यत्र
 तौ संगतौ चोभौ पितृभ्यां कमलेक्षणौ ॥ ३१ ॥ ततः शक्रस्य
 कौरव्य दत्त्वा वानापर्यं तदा । यत्र देवगणाः सर्वे समेता धर्म-

को अपने पुत्रोंके अनुकूल किसी प्रकार भी नहीं समझती २५
 यदि तुम अपनी माता और पिता मजापतिके वचनको सुनने
 योग्य समझते हो तो तुम शस्त्रोंको त्याग कर मेरे वचनको
 मानो २६ तब वे दोनों महावली देव " तथास्तु " कहनेके उपरान्त
 परस्पर बातचीत करते हुए स्नान करनेके लिये गंगाजीको चले
 गए २७ इन्द्रने कहा, कि हे प्रभो ! आप सब लोकोंको रचने
 वाले हैं आपने ही मुझे सारे राज्य पर स्थापित किया है आप
 मुझे स्थापित करके फिर मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं २८
 हे कमलपत्रान्त ! तुम भाई होकर भी ज्येष्ठताका कुछ भी ख्याल न
 कर सब बातोंकी समाप्ति क्यों करना चाहते थे २९ हे राजन् !
 वे दोनों दृढव्रत महात्मा गंगाजीमें स्नान करनेके अनन्तर अदिति
 और कश्यपके पास पहुँच गए ३० वे दोनों कमलनेत्र जहाँ पर
 अपने माता पितासे मिले थे उस देशको मुनि प्रियसङ्गमन नामक
 देश कहते हैं ३१ हे कौरव्य ! जहाँ पर सब धर्मचारी देवना
 इकट्ठे हो रहे थे तहाँ पर श्रीकृष्णने इन्द्रको अभयदान दिया ३२

चारिणः ॥ ३२ ॥ ततो गयुर्विमानैरतु देवाः सर्वे त्रिविष्टपम् ।
 ऋद्रथा परमया युक्तास्तेषामेनानुरूपया ॥ ३३ ॥ कश्यपपरवा-
 दिनिश्चैव तथा शक्रजनार्दनौ । विमानमेकगारुह्य गता राजंस्त्रि-
 विष्टपम् ॥ ३४ ॥ ते शक्रमदनं प्राप्ता रम्यं सर्वागुणान्वितम् ।
 ऊपुरेकत्र कौरव्य मुदिता धर्मचरिणः ॥ ३५ ॥ प्राची तु कश्यपं
 पत्न्या सहित धर्मवत्सला । उपाचरन् महात्मानं सर्वाभूतहिते
 रतम् ॥ ३६ ॥ ततस्तस्यां पभानार्या रजन्यागव्रवीद्धरिम् । अदिति-
 धर्मवत्सला सर्वाभूतं हितं वचः ॥ ३७ ॥ उपेन्द्र द्वारकां गच्छ पारि-
 जातं नयस्व च । वचना समापयन्मेश पुण्यकं हृदये स्थितम् ३८
 पुण्यके सत्यया मासे पुनरेप त्वया तहः । नदने पुरुषश्रेष्ठ स्थाप्यः
 म्याने यथोचिते ॥ ३९ ॥ एवमस्त्विति कृणोन् देवमाता यश-

तदनन्तर सब देवता अपने अनुकूल परम शोभासे सम्पन्न हो
 विमानोंमें बैठ कर स्वर्गको चले गए हे राजन् ! उस समय कश्यप
 अदिति इन्द्र और जनार्दन एक ही विमान पर बैठकर स्वर्गको
 चले ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ हे कौरव्य ! सब गुणोंसे युक्त रमणीय
 इन्द्रभवनमें पहुँचने के उपरान्त वे धर्मात्मा सम्पन्न होकर एक स्थान
 पर बैठे ३५ धर्मवत्सला इन्द्राणी सब भूतोंके हितमें तत्पर महात्मा
 कश्यप और उनकी स्त्रीकी सेवा करने लगी ३६ धर्मके तत्त्वको
 जानने वाली अदितिने रात बीत कर प्रातः काल होने पर
 श्रीकृष्णसे सब प्राणियोंका कल्याण करने वाला वाक्य कहा,
 कि-३७ हे उपेन्द्र ! अब तुम पारिजातको लेकर द्वारकाको जाओ
 और हे ईश ! वधूके हृदयमें स्थित पुण्यक व्रतके उत्सवको
 करो ३८ जब सत्यभामा पुण्यकव्रत कर चुके तब हे पुरुषश्रेष्ठ !
 तुम इस पारिजातको नन्दनवनमें यथोचित स्थान पर ही स्थापित
 कर देना ३९ महात्मा नारदजीने जिसको धर्मके गुणोंसे युक्त
 बताया था उस यशस्विनी देवमातासे श्रीकृष्णने कहा, कि-

स्विनी । उक्ता धर्मगुणैर्मुक्ता नारदेन महात्मना ॥ ४० ॥
 ततोऽभिवाद्य पितरं मातरं च जनार्दनः । महेन्द्रं सह शच्याऽथ
 प्रतस्थे द्वारकां प्रति ॥ ४१ ॥ ददौ कृष्णाय पौलोमी नियोगान्
 कुरुनन्दन । सर्वासामेव कृष्णस्य भार्याणां धर्मचारिणी ॥ ४२ ॥
 दिव्यानां सर्वरत्नानां वाससां च गनस्विनी । नानारागविर-
 क्तानां सदैवारजसामपि ॥ ४३ ॥ भार्याणां च सहास्रणि यानि
 षोडश गाधवे । प्रतिशृङ्ख महातेजाः मययौ द्वारकां प्रति ॥ ४४ ॥
 सम्पूज्यमानो द्युतिमान् खेचरैः पुण्यकर्मभिः । स सात्यकिः स-
 पुत्रश्च माप्तो रैवतकं गिरिम् ॥ ४५ ॥ स तत्र स्थापयित्वा च पारि-
 जातं वरद्रुमम् । सत्यकं प्रेषयामास द्वारकां द्वारशालिनीम् ४६
 श्रीकृष्ण उवाच । पारिजातमिहानीतं महेन्द्रसदान्मया । निवे

चहुंन अच्छा ४० तदनन्तर श्रीकृष्ण अपने माता पिताको और
 इन्द्राणी सहित इन्द्रको मणाम करके द्वारकाको चलने लगे ४१
 हे कुरुनन्दन ! उस समय धर्मचारिणी इन्द्राणीने कृष्णकी सय
 स्त्रियोंके लिये कृष्णको विद्रियें (प्रेमपूर्वक दिये जाने वाले
 पदार्थ) दिये ॥ ४२ ॥ उस गनस्विनीने दिव्य रत्न और कभी
 मलिन न होने वाले अनेक रत्नोंसे रंगे हुए वस्त्र भी दिये ४३
 इस प्रकार उसने माधवकी सोलह सहस्र रानियोंके लिए (प्रेम
 दिखानेके लिये वस्तुएँ दी) महातेजस्वी श्रीकृष्ण उनको ग्रहण
 कर द्वारकापुरीको चले ४४ आकाशनारी पुण्यात्मा व्यक्तियोंसे
 सत्कार पाते हुए कान्तिवान् श्रीकृष्ण और सात्यकि तथा प्रद्युम्न
 रैवतकपर्वत पहुँच गए ॥ ४५ ॥ श्रीकृष्ण तहाँ पर श्रेष्ठ वृक्ष
 पारिजातको रख कर द्वार वाली द्वारकाको सात्यकिको भेजने
 लगे ॥ ४६ ॥ श्रीकृष्णने कहा कि—हे भीमार्जुन! उत्पन्न होने
 वाले यादवाको बढ़ाने वाले महाभुज सात्यके ! तुम भीमवंशियों
 से निवेदन करो, कि—मैं महेन्द्रके भवनसे यहाँ पर पारिजातको ले

दय महाबाहो भैमानां भैवन्धन ॥ ४७ ॥ अद्य द्वारवतीं चैव
 पारिजातमहं द्रुमम् । प्रवेशयिष्ये नगरे शोभाः प्रक्रियतां शुभाः
 इत्युक्तः सत्यको गत्वा तथोक्त्वा पुनरागतः । कुमारैर्नागरैः
 सार्धं साम्बपभृतिभिः प्रभो ॥४६॥ ततोऽग्रतः पारिजातमारोप्य
 गरुडे तदा । प्रद्युम्नो द्वारकां रम्यां विवेश रथिनां वरः ॥५०॥
 शैव्यादिहययुक्तेन रथेनानुययौ हरिः । तस्याथ रथमुत्थेन सत्यकः
 साम्ब एव च ॥ ५१ ॥ ये त्वन्ये नृप त्राण्येया यानैर्बहुविधै-
 स्तथा । ययुः महृष्टास्तत्कर्म पूजयन्तो महात्मनः ॥५२॥ सत्यका-
 द्विस्तरं श्रुत्वा यादवा नागरास्तथा । विस्मयं परमं जग्मुर्ममेयस्य
 कर्मणा ॥५३॥ तं दिव्यकुसुमं वृक्षं वृष्टानर्तनिवासिनः । राजन्न
 तत्पृहृष्टाः पश्यमाना महोदयम् ॥ ५४ ॥ तमद्भुतमचिन्त्यं च
 मदकेलिकलाडजम् । वृक्षोत्तमं पश्यतां वी वृद्धानामगमज्जरा ५५

आया हूँ ॥ ४७ ॥ आज मैं महावृक्ष परिजातका द्वारकामें प्रवेश
 कराऊँगा इस लिये नगरमें शुभ शोभा फैलानी चाहिये ॥४८॥
 हे प्रभो ! इस बातको सुनकर सात्यकि उस बातको नगरमें कह
 कर साम्ब आदि कुमारोंके और नागरिकोंके साथ आगए ४६
 तदनन्तर रथियोंमें श्रेष्ठ प्रद्युम्न आगे २ गरुड़ पर परिजातको
 रख कर रगणीय द्वारकामें घुसे ॥ ५० ॥ श्रीकृष्ण सात्यकि
 और प्रद्युम्नको साथमें लेकर शैव्य आदि घोड़ोंसे जुते हुए श्रेष्ठ
 रथमें बैठ कर चले ॥ ५१ ॥ हे राजन् ! दूसरे वृष्णिवंशी पुरुष
 भी प्रसन्न होकर उन महात्माके इस कर्मकी प्रशंसा करते हुए
 चले ॥५२॥ सात्यकिसे अप्रमेय श्रीकृष्णके कर्मको विस्तार पूर्वक
 सुन कर यादव और नगरनिवासी परम विस्मित हुए ॥ ५३ ॥
 आनर्त (द्वारका) में रहने वाले पुरुष उस दिव्य पुष्पों वाले
 वृक्षको देखकर फूले न समाते थे ॥ ५४ ॥ उस अचिन्त्य, मद
 से क्रीड़ा करने वाले पत्नियोंसे युक्त उत्तम वृक्षको देख कर वृद्धों

ये त्वन्धवक्षुपः सर्वे तेऽभवन् दिव्यवक्षुपः । विरोगा रोगिण-
 आसन् घात्वा गन्धं वनस्पतेः ॥ ५६ ॥ लपन्तः कोकिलाञ्छु-
 चेताञ्छ्रुत्वानर्तनिवासिनः । बभूवुर्हृष्टमनसो ववन्दुश्च जनार्दनम्
 नानाविधानि तूर्पाणि गेयानि गधुराणि च । शुश्रुवुस्तस्य वृक्षस्य
 नातिदूरं गता नराः ॥ ५८ ॥ यो यं संकल्पयामास गन्धं हृद्यं
 नरस्तथा । स तदैव तमाजघ्ने पारिजातसमुद्भवम् ॥ ५९ ॥ ततः
 पविश्य रम्यां तु द्वारकां यदुनन्दनः । वसुदेवं महात्मानं ददृशे
 देवकीं तथा ॥ ६० ॥ कुकुराधिपतिं चैव बलं भ्रातरमेव च ।
 वृद्धाश्च यादवान्तां ये मानार्हानपरोपमान् ॥ ६१ ॥ विसृज्य तान्
 वै भगवाननादिनिधनोऽच्युतः । सम्पूज्य च यथान्यायं स्वमेव
 भवनं गतः ॥ ६२ ॥ स सत्यभामयावासं विवेश मधुसूदनः ।
 पारिजात तरुश्रेष्ठं ग्रहाय मदपूर्वजः ॥ ६३ ॥ सा देवी पूजया-
 का बुद्धापा दूर होगया ॥ ५५ ॥ उस वनस्पतिकी गंधको सूँघ
 कर अंगीकी आखें दिव्य होगई और रोगी पुरुष रोग रहित
 होगए ॥ ५६ ॥ आनर्तनिवासी श्वेत कोयलोंको आलाप करती
 हुई सुन कर मनमें प्रसन्न होने लगे और श्रीकृष्णकी वन्दना
 करने लगे ॥ ५७ ॥ उस वृक्षसे थोड़ी दूर पर खड़े हुए मनुष्य
 अनेक प्रकारके तूर्य और मधुर गीतोंको सुनने लगे ॥ ५८ ॥
 मनुष्योंने अपने मनमें जिस २ हृदयमिय गंधका स्मरण किया
 उन मनुष्योंको पारिजातसे वही २ गंध सुँघाई देने लगी ॥ ५९ ॥
 यदुनन्दन श्रीकृष्णने द्वारकामें प्रवेश करनेके अनन्तर महात्मा
 वसुदेव देवकी कुकुराधिपति उग्रसेन भाई बलदेव, देवताओंकी
 समान सत्कारके पात्र वृद्ध यादवोंको देखा ॥ ६० ॥ ६१ ॥
 आदि अन्तरहित भगवान् अच्युत उनका यथायोग्य सत्कार कर
 उनका विसर्जन करनेके अनन्तर अपने भवनको चले ॥ ६२ ॥
 मदके बड़े भाई श्रीकृष्ण श्रेष्ठ वृक्ष पारिजातको लेकर सत्यभामा

गास प्रहृष्टा वासवानुजम् । प्रनिजग्राह तं चापि पारिजातं महा-
द्रुमम् ॥ ६४ ॥ गनीपितेन स तरुरूपो भवति भारत । महाश्र
वासुदेवाभ्य तदद्भुतमभून्महत् ॥ ६५ ॥ कदाचिद् द्वारकां सर्वा
गच्छादयति भारत । कदाचिद्भ्रमत्भार्यस्तु भनत्यंगुष्ठसन्निभः ६६
ननन्द सत्या कौरव्य देवी प्राप्य मनोरथम् । पुण्यकार्यं तु
सम्भारान् सम्भर्तुमुपचक्रमे ॥ ६७ ॥ यानि द्रव्याणि कौरव्य
जम्बूद्वीपे तु कानिचित् । योग्यानि तानि कृष्णेन सम्भृतानि
महात्मना ॥ ६८ ॥ मुनिं तदा संस्मृतवान् स नारदं जनार्दनः
सवेगुणोचितं वशी । प्रतिग्रहार्थं व्रतकस्य सत्यया यथोपदिष्टस्य
पुस्न्दरानुजः ॥ ६९ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि पारिजाता-
नयनं नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥

के भवनमें घुसे ॥ ६३ ॥ उस समय उस देवीने मसन्न होकर
वासव (इन्द्र) के भाई श्रीकृष्णकी पूजा की, और महाद्रुम पारि-
जातको ग्रहण कर लिया ॥ ६४ ॥ हे भारत ! वह वृक्ष श्रीकृष्ण
की इच्छानुसार कभी छोटा होजाता था, कभी बड़ा होजाता था,
यह अद्भुत बात होती थी ॥ ६५ ॥ हे भारत ! कभी वह सारी
द्वारकाको छा लेता था और कभी हाथमें धारण करने योग्य
अंगूठेकी समान होजाता था ॥ ६६ ॥ हे कौरव्य ! देवी सत्य-
भागा अपने मनोरथको पूर्ण हुआ देख कर पुण्यक व्रतके लिये
सामग्रियों जोड़ने लगी ॥ ६७ ॥ जम्बूद्वीपमें जितने उचित द्रव्य थे
महात्मा कृष्णने उन सबको एकत्रित करलिया ॥ ६८ ॥ तदन-
न्तर इन्द्रके छोटे भाई जितेन्द्रिय श्रीकृष्णने सत्यभामाके कथना-
नुसार पुण्यक व्रतमें प्रतिग्रह करनेके लिये सर्वगुणोचित नारद-
मुनिका स्मरण किया ॥ ६९ ॥ पिचहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ७५

वैशम्पायन उवाच । अथ कृष्णस्य कौरव्य ध्यातमात्रस्तपो-
धनः । आजगाग मुनिश्रेष्ठो नारदो वदताम्बरः ॥ १ ॥ संपूज-
यित्वा विधिवद्वासुदेवो विशाम्पते । प्रतिग्रहार्थं विधिवच्छ्रीमान्
भक्त्या न्यगन्त्रयत् ॥ २ ॥ ततः फाले च सम्प्राप्ते स्नानं देवो
महामुनिम् । सम्पूज्य माल्यैर्गन्धैश्च भोजयामास भारत ॥ ३ ॥
सार्वाकामिकमन्नाद्यं सर्वभूतकृदन्वयः । सत्यया प्रियया सार्धं
प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ ४ ॥ पुष्पदामात्रसज्जयाथ कण्ठे कृष्णस्य
भाविनी । वचन्थ कृष्णं सुभगा पारिजाते वनस्पतौ ॥ ५ ॥
अद्भिर्ददौ नारदाय ततोऽनुज्ञाप्य केशवम् । देवी धेनुसहस्रं च
क्रांचनस्य च पर्वतम् ॥ ६ ॥ हिरण्यरूपगिश्रं च मणिरत्नगभस्य
च । तिलमिश्रस्य च तथा धान्यैरन्यैर्युतस्य च ॥ ७ ॥ प्रतिशृह्य

वैशम्पायनजीने कहा, कि-वक्ताओंमें श्रेष्ठ मुनिसत्तम तपोधन
नारदजी श्रीकृष्णके ध्यान करते ही तहाँ आगये १ हे राजन् !
श्रीमान् श्रीकृष्णने उनका शास्त्रोक्त रीतिसे पूजन कर उनको
भक्तिपूर्वक दान देनेके लिये निमन्त्रण दिया ॥ २ ॥ तदनन्तर
जब दानका समय आनेपर महामुनि स्नान करके तहाँ आगए,
उस समय, हे भारत ! श्रीकृष्णने उनका माला चन्दन आदि
से सत्कार कर उनको भोजन कराया ३ सब भूतोंको रचनेवाले
श्रीकृष्णने और उनकी प्यारी भार्या सत्यभामान मसन्न मनसे
सबके चाहने योग्य अन्न उनको जिमाया ४ तदनन्तर सज्जाववाली
सौभाग्यवती सत्यभामाने श्रीकृष्णके कण्ठमें पुष्पोंसे गुंथी हुई
डोरी डालकर श्रीकृष्णको परिजातक नामवाले वनस्पतिसे बंध
दिया ॥ ५ ॥ तदनन्तर सत्यभामाने श्रीकृष्णसे सम्मति लेनेके
अनन्तर श्रीकृष्णका जलके द्वारा नारदजीके दान देदिया और
साथमें सहस्र गौएँ सुवर्णका ढेर मणि और रत्नोंके समान
प्रभाववाले चाँदी सोने तिल तथा और भी धान्यों का ढेर

तु तत् सर्वं नारदो मुनिसत्तमः । स संपहृष्टो भुक्त्वाऽथ भूयः
 केशवमब्रवीत् ॥८॥ भो केशव मदीयस्त्वमद्भिर्दत्तोसि सत्यया ।
 स त्वं मामनुगच्छस्व कुत्र यद्यद्ब्रवीम्यहम् ॥ ९ ॥ प्रथमः पत्न
 इत्येवमब्रवीन्मधुसूदनः । ब्रजन्तमनुब्रवाज नारदं च-जनार्दनः १०
 परिहासं बहुविधं कृत्वा मुनिवरस्तदा । तिष्ठस्व गच्छामीत्युक्त्वा
 परिहासत्रिचक्षणः ॥ ११ ॥ अपनीय ततः कण्ठात् पुष्पदामै-
 न्ब्रवीत् । कपिलां गां सवत्सां भो निष्कण्ठार्थं प्रयच्छ मे ॥१२॥
 कृष्णाजिनं तिलैः पूर्णं प्रयच्छ च सकांचनम् । एषोऽत्र निष्कण्ठयः
 कृष्ण विहितो वृषकेतुना ॥ १३ ॥ तथेत्युक्त्वा हृषीकेशस्तथा
 चक्रे जनाधिप । स उवाच मुनिश्रेष्ठं हसित्वा मधुसूदनः ॥१४॥

दिया ॥ ६ ॥ ७ ॥ तदनन्तर मुनिसत्तम नारदजीने उन सब
 वस्तुओंको ग्रहण कर मसन्नतापूर्वक श्रीकृष्णसे कहा; कि-
 हे केशव ! अब तुम मेरे होगए, सत्यगामाने तुम्हें मुझे जलका
 संकल्प कर दान दे दिया है इसलिये आप अब मेरे पीछे २
 आइये और मैं जो कुछ कहूँ उसको करिये ॥ ९ ॥ तब जना-
 र्दन मधुसूदन चलते हुए नारदजीके पीछे २ चलकर कहने लगे,
 कि-यह तो (सेवकोंका) मुख्य कर्तव्य है ॥ १० ॥ हास्य करनेमें
 चतुर नारदजीने (खड्ग उठाकर लाओ इत्यादि आज्ञा देकर)
 अनेक प्रकारका परिहास किया तदनन्तर मुनिवर नारदजीने
 कहा कि तुम यहाँ खड़े रहो अब मैं जाता हूँ ॥११॥ तदनन्तर
 उन्होंने श्रीकृष्णके कण्ठमेंसे डोरी निकाल कर कहा, कि-आप
 मुझे अपनी मूज्यस्वरूप बछड़े सहित एक गौ दीजिये ॥ १२ ॥
 और काले तिलोंसे भरा हुआ एक सुवर्णका पात्र भी मुझे दो,
 हे कृष्ण । शंकरने यहाँ पर यही मूज्य बनाया है ॥ १३ ॥ हे
 राजन् ! श्रीकृष्णने तथास्तु कहकर ऐसा ही किया फिर उन्होंने
 मुनिवर नारदजीसे हँसकर कहा, कि-॥१४॥ हे धर्मज्ञ नारदजी!

वरं वरय धर्मज्ञ यस्ते नारद काञ्चितः । तत्ते दातास्मि धर्मज्ञ
 परा प्रीतिर्हि मे त्वयि ॥ १५ ॥ नारद उवाच । नित्यमेवास्तु मे
 प्रीतो भवान् विष्णो सनातन । त्वत्प्रसादात्तु सात्त्विकं ज्ञेयं ते
 महामते ॥ १६ ॥ अयोनिजो भवेयं ते नारायण सतां गते ।
 भवेयं ब्राह्मणश्चैव पुनर्जात्यन्तरेष्वपि ॥ १७ ॥ एवमस्तिवति तं
 देवो विष्णुः प्रोवाच भारत । तुतोप च तनो धीमान् नारदो
 मुनिसत्तमः ॥ १८ ॥ षोडशस्त्रीसहस्राणि विष्णोस्तुल्लतेजसः ।
 निमन्त्रितानि कौरव्य सत्प्रया हरिकीर्तया ॥ १९ ॥ तासां ददौ
 सन्निभोगमेकैकं हरिवल्लभा । श्रुत्वा यो वासुदेवस्य पुरा दत्तो
 नराधिपः ॥ २० ॥ पारिजातो वसंदात् ततः प्रवृत्ते तदा । आह्वया
 वासुदेवस्य नारदेन महात्मना ॥ २१ ॥ निमन्त्रिता गणाः सर्वे

आप वर माँग लीजिए, जो आपकी इच्छा होगी वह दूँगा,
 क्यों कि-हे धर्मज्ञ ! मैं आपके ऊपर परम प्रसन्न हूँ नारदजीने
 कहा, कि-हे सनातन विष्णो ! आप मेरे ऊपर सर्वदा प्रसन्न
 रहें और हे महामते ! आपकी प्रसन्नतासे मुझे आपका ही लोक
 मिलना चाहिये ॥ १५ ॥ हे सज्जनोंकी गति नारायण ! मैं
 अयोनिज हूँ और दूसरे जन्मोंमें भी ब्राह्मण बनकर ही
 उत्पन्न हूँ ॥ १६ ॥ हेभरतवंशी राजन् ! उस समय भगवान्
 विष्णुने एवमस्तु कहा, तब तो मुनियोंमें श्रेष्ठ बुद्धिमान् नारदजी
 प्रसन्न होगए ॥ १७ ॥ हे कुण्डवंशी राजन् ! हरिकी मिया सत्य-
 भामाने अतुल्ल तेजस्वी विष्णुकी सोलह सहस्र स्त्रियोंको भी
 निमन्त्रण देकर बुलवा लिया ॥ १८ ॥ हे राजन् ! इन्द्राणीने
 वासुदेवको जो पहिले भेंटकी वस्तुएं दी थीं, उन सबको हरि-
 वल्लभाने प्रत्येकको बाँट दिया ॥ २० ॥ तहाँ पर पारिजातने
 अपना गुण दिखाना आरम्भ कर दिया वासुदेवकी आज्ञासे
 महात्मा नारदने (सब मित्रोंको भी बुलालिया) ॥ २१ ॥ हे कुण-

केशवेन महात्मना । विभूतिं पारिजातस्य ददशुः कुहनन्दन २२
 पाण्डवाश्चानयामास सदैव पृथया हरिः । द्रौपद्या च महातेजा
 स्तथैव च सुभद्रया ॥ २३ ॥ श्रुतश्रवां च ससुतां भीष्मकं ससुतं
 तदा । अन्धानपि च कौरव्य मित्रसम्बन्धिवन्भवान् ॥ २४ ॥
 रमे च सह पार्थेन फाल्गुनेन जनार्दनः । सान्तःपुरो महातेजाः
 परमद्वर्था वसन्तृप ॥ २५ ॥ सम्बत्सरे ततो याते केशिहाऽमर-
 सत्तमः । पारिजातं पुनः स्वर्गमानपत् सर्वभावनः ॥ २६ ॥ तत्रा-
 दितिं करषपं च दृष्ट्वा स्वजननीं प्रभुः । शक्रेण सहितो धीमानः
 प्रमेयपराक्रमः ॥ २७ ॥ तमुवाचादितिर्माता प्रणतं मधुसूदनम् ।
 सौभ्रात्रमस्तु नामैवं नित्यं चामरसत्तम ॥ २८ ॥ मनोरथं मग-
 त्वं च पूरयस्व जनार्दन । तथेत्येवात्रवीत् कृष्णस्ततो गानरमात्म-

नन्दन ! केशवके द्वारा निमन्त्रित सब मित्र और सम्बन्धी भी पारिजातकी विभूतिको देखने लगे ॥ २२ ॥ हे कौरव्य ! महा-
 तेजस्वी श्रीकृष्णने पृथा द्रौपदी और सुभद्राके साथ पाण्डवोंको
 भी बुलवा लिया श्रुतश्रवाको उनकी पुत्रीको भीष्मकको उनके
 पुत्रको तथा और भी मित्र सम्बन्धी बांघोंको भी बुलवा
 लिया ॥ २३ ॥ २४ ॥ हे राजन् ! महातेजस्वी जनार्दन और उन
 का रनवास वड़े डाठके साथ तहाँ रहना था उधर श्रीकृष्ण पृथा
 पुत्र अर्जुनके साथ आनन्दमें रहते थे २५ इस प्रकार जब साल
 भर बीत गया तब सबका कल्याण चाहने वाले देवताओंमें श्रेष्ठ
 तथा केशी दैत्यका नाश करने वाले श्रीकृष्ण पारिजातको फिर
 स्वर्ग लेगए २६ अगमे पराक्रमी और युद्धिमान श्रीकृष्णने तथा
 इन्द्रने करषपके तथा अती माता अदितिके दर्शन किये २७ उस
 समय प्रणाम करते हुए मधुसूदन श्रीकृष्णसे माता अदितिने
 कहा, कि-हे अमरसत्तम ! तुममें सर्वादा ऐसा ही भाईचारा बना
 रहे २८ हे जनार्दन ! तुम मेरे इस मनोरथको पूर्ण करो, तदन-

वान् ॥२६॥ आमन्त्रयित्वा पितरौ देवराजानगवीत् । वासुदेवो
 महातेजाः कालमाप्तमिदं वचः ॥३०॥ महादेवेन देवेश संदिष्टो-
 ऽस्मि महात्मना । अन्तर्भूमितलोऽवध्यानसुरान्प्रति मानद ॥३१॥
 तदिदो दशरात्रेण हन्ताहमसुरोत्तमान् । तत्रोपविष्टान् स्थातव्यं
 मन्त्रेण गहत्पना ॥३२॥ जयन्तेन च वीरेण दानवानां जिघां-
 सया । एकोऽन मानुषो देवो देवपुत्रस्तथाऽपरः ॥३३॥ अवध्याः
 किल ते देवैर्ब्रह्मणो वरदर्पिताः । अस्माभिः किल हन्तव्या
 मानुषत्वमुपागने ॥ ३४ ॥ तथेति कृष्णं स हरिः प्रीतरूपस्तथा-
 ऽब्रवीत् । सस्वजाते ततो देवान्योन्यं जनमेजय ॥ ३५ ॥
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे
 स्वर्गे पारिजातस्थापनं नाम पद्मसप्ततितमोऽध्यायः ॥७६॥

न्तर आत्मवान् श्रीकृष्णने अपनी मातासे तथास्तु कहा २६
 तदनन्तर महातेजस्वी श्रीकृष्णने अपने माता पितासे बात चीत
 करके देवराज इन्द्रसे सम्योचित वचन कहा, कि-॥ ३० ॥
 हे मानद देवेश ! महात्मा महादेवने मुझसे भूमिके भीतर रहने
 वाले अरन्ध्र असुरोंके सम्बन्धमें बातचीत की है ॥ ३१ ॥
 इस लिये मैं तहाँ पर बैठे हुए बड़े २ असुरोंको दश रात्रिके
 भीतर ही मार डालूँगा, आप श्रेष्ठ महात्मा हैं, इस लिये आप भी
 तहाँ पर बैठिये ३२ और दानवोंको मारनेकी इच्छासे वीर जयन्त
 भी तहाँ उपस्थित रहे तहाँ पर एक मनुष्यशरीरधारी देव
 और दूसरा देव पुत्र रहना चाहिये ३३ वे ब्रह्माजीके वरदानके
 कारण घण्टमें भर रहे हैं और देवताओंसे अवध्य है अब
 मनुष्यका अवतार ग्रहण करने पर हमें उनको अवश्य मार डालना
 चाहिये ॥ ३४ ॥ तब तो इन्द्रने श्रीकृष्णसे ऐसा ही हो कहा हे
 जनमेजय ! फिर उन दोनों देवताओंने फिर परस्पर आर्त्तिगन
 किया ॥ ३५ ॥ ब्रह्मचरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥

जनमेजय उवाच । पुण्यकानां ममोत्पत्तिं कथयस्व द्विजोत्तम ।
 द्वैपायनप्रसादेन सर्वं हि विदितं तत्र ॥१॥ वैशम्पायन उवाच ।
 उपया पुण्यकविधिर्नरेन्द्रोत्पादितः पुरा । शृणु येन विधानेन
 लोके धर्मभृतां वर ॥ २ ॥ स्वर्गान्गीते पारिजाते कृष्णेनाविलष्ट-
 कर्मणा । यगौ द्वारवतीं धीमान्नारदो मुनिसत्तमः ॥ ३ ॥ देवा-
 सुरे नृपश्रेष्ठ संग्रामे सद्युपस्थिते । पट्पुरस्य वधे घोरे महादेवा-
 ज्ञयाऽनघ ॥ ४ ॥ कृष्णेन सहितं विभं नारदं धर्मवित्तमम् ।
 आसीनं परिपश्यच्छ रुक्मिणी भौष्मकी नृप ॥ ५ ॥ तत्र जाम्ब-
 वती देवी सत्यभामा च भाविनी । गान्धारराजपुत्री च योग-
 युक्ता नराधिप ॥६॥ देव्यश्च नृप कृष्णस्य ब्रह्मचोऽन्या वै समा-
 गताः । कुलशीलगुणोपेता धर्मशीलाः पतिव्रताः ॥७॥ रुक्मिण्यु-
 वाच । मुने धर्मभृतां श्रेष्ठ धर्मज्ञानभृतां वर । उत्पत्तिं पुण्यकानां

जनमेजयने कहा, कि-हे द्विजोत्तम ! आप मुझसे पुण्यक व्रतों
 की उत्पत्तिको कहिये, क्योंकि-आपको वेदव्यासजीके प्रसादसे
 सब बातें विदित है १ वैशम्पायनजीने कहा, कि-हे धर्मात्माओं
 में श्रेष्ठ नरेन्द्र ! जिस प्रकारसे उपाने पुण्यकविधिकों उत्पादित
 किया था उसको सुनिये ॥ २ ॥ जब श्रीकृष्ण स्वर्गसे पारिजात
 को लौटए उस समय मुनिसत्तम बुद्धिमान् नारदजी द्वारकापुरीको
 चले ॥ ३ ॥ हे निष्पाप श्रेष्ठ राजन् ! जब महादेवजीकी आज्ञा
 से पट्पुरवधका समय आने पर महाघोर देवासुर संग्राम आलगा
 (उस समय नारदजी आए थे) ॥ ४ ॥ हे राजन् ! उस समय
 श्रीकृष्णके साथ बैठे हुए धर्मचारियोंमें श्रेष्ठ नारदजीसे भीष्मक
 पुत्री रुक्मिणी बूझने लगी ॥ ५ ॥ हे राजन् ! उस समय तहाँ
 जाम्बवती देवी मागिनी सत्यभामा, योगिनी गान्धारराजपुत्री
 इनके अतिरिक्त कुल शीलवती और भी कृष्णकी बहुतसी पति-
 व्रता रानियें तहाँ आई हुई थीं ॥ ६ ॥ ७ ॥ रुक्मिणीने ब्रम्हा;

त्वं वक्तुमर्हस्यशेषतः ॥ ८ ॥ विधिं च फलयोग च दानकाल
 तथैव च । कौतूहलं नस्तत्सिद्धिं वदस्व वदतां वर ॥९॥ नारद-
 उवाच । शृणु वैदर्भिर्धर्मज्ञे सपत्नीभिः सहानघे । पुण्यकानां
 विधिः प्रोक्तो यथा देवि पुरा मया ॥ १० ॥ चचारोगाव्रत देवी
 पुण्यकानां शुचित्रता । व्रतावसानेऽथ तथा सख्यो देवि निर्मत्रिता
 अदित्याद्याः सुताः सर्वा दत्तस्याविलष्टकर्मणः । पौलोमी च
 शची देवी खयाता लोके पतित्रता ॥ १२ ॥ रोहिणी च महा
 भागा सोमस्य दयिता सती । फाल्गुनी च तथा पूर्वा रेवती च
 विशाम्पते ॥१३॥ तथा शतभिषा चैव मघा च कुरुनन्दन । एता
 भिर्हि महादेवी पूर्वमाराधिता सती ॥ १४ ॥ गंगा सरस्वती चैव
 वेणी गोदा च निम्नगा । तथा वैतरणी चैव गण्डकी या च

क्रि-हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ और हे धर्मज्ञ ज्ञान रखने वालोंमें
 उत्तम ! आप पुण्यककी उत्पत्तिको पूर्णरीतिसे कहिये ॥ ८ ॥
 इसकी विधिको और इसके फलको तथा इसके दानके समयको
 भी बताइये हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! इसका हमें कौतूहल होरहा है,
 अतः हमसे इसकी सिद्धिका वर्णन करिये ९ नारदजीने कहा, क्रि
 हे धर्मज्ञ वैदर्भि ! हे निष्पापे ! मने इस पुण्यककी विधिको जिस
 प्रकार कहा था, उसको अब तुम और तुम्हारी सौतें भी फिर सुनें
 पवित्र व्रत वाली उमादेवीने पुण्यक व्रत किया था हे देवि !
 उन्होंने व्रतके अन्तमें अपनी सखियोंको निमत्रित किया था ११
 अम्बिकाने अपना व्रत समाप्त होने पर सरलतासे कर्म करनेवाले
 दत्तकी सब पुत्री, और लोकोंमें पतिव्रतारूपसे प्रसिद्ध पुलोमा
 की पुत्री इन्द्राणी और हे राजन् ! चन्द्रमाकी मित्रपत्नी महाभागा
 रोहिणी फाल्गुनी तथा पूर्वा, रेवती, हे कुरुनन्दन ! शतभिषा मघा
 गंगा सरस्वती वेणा गोदा नदी वैतरणी गण्डकी तथा हे भारत !
 और भी रमणीय नदियें लोपामुद्रा और जगत्का कल्याण करने

(६६८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [सप्तसप्ततितम

भारत ॥ १५ ॥ अन्याश्च सरितो रम्या लोपासुद्रा च भारत ।

सत्यश्रान्या जगद्देवि धारयन्ति हि ताः शुभाः ॥ १६ ॥ शुभाश्च

गिरिनन्दिन्यो वन्हिकन्याश्च सुव्रताः । स्वाहा वन्हिप्रिया देवी

सावित्री च यशस्विनी ॥ १७ ॥ ऋद्धिः कुबेरकान्ता च जले

ष महिषी तथा । भार्या पितृपतिश्चैव वसुपत्न्यस्तथा च या १८

हीः श्रीधृतिस्तथा कीर्तिराशा मेधा च सुव्रताः । गीतिर्मतिश्च

ख्यातिश्च सन्नीतिश्च तपोधनाः ॥ १९ ॥ देव्यः सत्य-

स्तथैवान्याः सर्वभूतहिते रताः । तासां व्रतावसाने च पूजा

चक्रेम्बिका तदा ॥ २० ॥ तिलरत्नमयं दत्त्वा पर्वतं सर्वधान्य-

वत् । वासोगिभूर्पण्यैर्मुख्यैर्नानारागैः सुमध्यमे ॥ २१ ॥ प्रति-

गृष्टा तु तां पूजां दत्त्वा देयां तपोधनाः । उपविष्टाः कथाश्चित्राः

कुर्वन्त्यो भर्तृदेवताः ॥ २२ ॥ पुण्यकार्यं कथास्तासामासन् देवी

शशंस याः । विधिं च पुण्यकस्याथ सतीनां भर्तृदेवते ॥ २३ ॥

तासां मतेन साध्वीनां सर्वासां सोमनन्दिनी- । पर्यपृच्छदुर्गा देवी

वालीं और भी देविये, शुभ गिरिनन्दिनियें सुव्रत वन्हिकन्याएँ,

अग्निकी प्यारी स्वाहा, यशस्विनी देवी सावित्री, जलकी रानी

कुबेरप्रिया-ऋद्धि, पितृपति यमराजकी भार्या और वसुपत्नियें

ही, श्री, धृति कीर्ति आशा मेधा सुव्रता-गीति मति ख्याति और

तपोधन सन्नीति और सब भूतोंके हितमें परायण सती देवियों

की कि-जिन्होंने पहिले भम्बिकाका सत्कार किया था, उनकी

पूजाकी ॥ १२-२० ॥ हे सुमध्यमें ! (उन्होंने) अनेक प्रकारके

संगोंसे संगे हुए वस्त्र, सुख्य २ भूषण और तिल तथा रत्नोंके

पर्वत दिये ये ॥ २१ ॥ वह स्वामीको देवता मानने वाली तपो-

धन देवियों तूसे पूजाको ग्रहण कर बैठी २ विचित्र कथाएँ कहने

॥ २२ ॥ तूसे पूजाको देवता माननी वाली ! उन देवियों

॥ २३ ॥ हे देवियों विधिमें संदेह ना अत एव - ६८

पुण्यकानां विधिं वरा ॥ २४ ॥ उमा तासां प्रियार्थं तु पुण्य-
कान्यववीचदा । समक्षं मम वैदर्भिं सर्वभूतहिते रता ॥ २५ ॥
ममैव च गया दत्तः स तदा रत्नपर्वतः । प्रतिगृह्य मया चैव
कृतो ब्राह्मणसाच्छुभे ॥ २६ ॥ उमा त्वरुन्धतीं साध्वीणामंडप
यदभाषत । शृणु कल्पणि वक्ष्यामि सर्वाणिः सहिता शुभे २७
पुण्यकानां विधिं कृत्स्नं यथावदनुपूर्वशः । यथा चैव मया दृष्ट-
स्तत एव विधिः शुभे ॥ २८ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि पुण्यकविधि-
कथनं नाम सप्तसप्ततिमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥

उमोवाच । सर्वाज्ञाऽहं यदा भर्तुः प्रसादेन शुचिस्मिते । तदा
पुरा ममादिष्टो दृष्टः पुण्यविधिः शुभः ॥ १ ॥ सनातनः पुण्य-
विधिरिति बुद्ध्याऽवगम्यताम् । महादेवप्रसादेन गया दृष्टस्त्व-
वातें करने लगीं ॥ २३ ॥ उन सब साध्वियोंके विचारके अनु-
सार अरुन्धती उमासे पुण्यकव्रतकी बात बूझने लगी । २४ ।
हे वैदर्भि ! तब सब भूतोंके हितमें परायण रहने वाली उमाने
मेरे सामने पुण्यकका वर्णन किया था ॥ २५ ॥ हे शुभे ! वह
रत्नपर्वत मेरे अर्पण किया गया था, और मैंने उसे ब्राह्मणोंके
अर्पण कर दिया था ॥ २६ ॥ हे शुभे ! उस समय उमाने अरु-
न्धतीकी आमन्त्रित कर जो बात यही थी, उसको हे कल्पणि !
तुम और सब स्त्रियोंके साथ उसको सुनो ॥ २७ ॥ हे शुभे !
जिस प्रकार मैंने इस विधिको देखा है उसी प्रकार मैं पुण्यककी
विधिको क्रमपूर्वक कहता हूँ ॥ २८ ॥ सतत्तरवाँ अध्याय
समाप्त ॥ ७७ ॥

पार्वतीने कहा, कि-हे शुचिस्मिते ! मैं स्वागीकी प्रसन्नताके
कारण सर्वज्ञ हूँ इसीलिसे मुझे स्वामीकी पहले आदेश दी हुई
पुण्यकविधि याद है ॥ १ ॥ यह पुण्यकविधि सनातन है

रुन्धती ॥ २ ॥ पुण्यकानि च सर्वाणि चीर्णवत्यस्म्यनिन्दिते ।
 अनुज्ञया भगवतो भर्तुः शर्वस्य धीमतः ॥३॥ सतीत्वं धर्मचरणं
 यस्यानित्यमखण्डितम् । पुण्यकानां विधिस्तस्या पुराणैः परि-
 कीर्तितः ॥ ४ ॥ दानोपवासपुण्यानि सुकृतान्यप्यरुन्धती ।
 निष्फलान्यसतीनां हि पुण्यकानि तथा शुभे ॥ ५ ॥ या वञ्च-
 यन्ति भर्तारं योनिदुष्टाश्च याः स्त्रियः । योनिदोषात् पुण्यफलं
 नाश्नन्ति निरयङ्गवाः ॥ ६ ॥ साध्व्यो जगद्धारयन्ति सुशीलाः
 पतिदेवताः । अनन्या धर्मनित्याश्च सतीपन्थानमाश्रिताः ॥ ७ ॥
 अवाग्दुष्टाः शौचयुक्ता धृतिमत्यः शुभव्रताः । सततं साधुवा-
 दिन्यो धारयन्ति जगत् खलु ॥ ८ ॥ व्याधितः पतितो वापि

हे अरुन्धती ! मैंने इसको महादेवजी प्रसादसे जाना है ॥ २ ॥
 हे अनिन्दिते ! मैंने अपने स्वामी भगवान् शिवकी अनुज्ञासे सब
 प्रकारके पुण्यकर्म किये हैं ॥३॥ जिसका सतीत्व और धर्मा-
 चाण सर्वदा अखण्डित रहता था-उससे ही प्राचीन पुरुष
 पुण्यकविधिका वर्णन किया करते थे ॥४॥ हे शुभे अरुन्धती !
 असती स्त्रियोंके दान उपवास पुण्य और पुण्यकर्म भी निष्फल
 जाते हैं ॥ ५ ॥ जो स्त्रियें अपने स्वामीको ठगा करती हैं और
 जो स्त्रियें योनिदुष्ट होती है वे स्त्रियें योनिदूषित होनेसे पुण्यके
 फलको नहीं पाती हैं और नरकमें गिरती हैं ॥६॥ सतीमार्गका
 आश्रय लेनेवाली सर्वदा धर्मका आचरण करनेवाली पतिके
 अतिरिक्त दूसरेका ध्यान न करनेवाली और पतिको देवता
 माननेवाली सुशील साध्वी स्त्रियें जगत्को धारण कर रही हैं ७
 दूषित चाणिका उच्चारण न करनेवाली पवित्रता रखनेवाली शुभ
 वर्तिका पालन करनेवाली धैर्यधारिणी और सज्जनतासे भाषण
 करनेवाली स्त्रियें इस जगत्को सर्वदा धारण किये रहती हैं ॥८॥
 अपना स्वामी रोगी पतित अथवा दीन होतो भी स्त्री अपने

दीनो वापि कथंचन । न त्यक्तव्यः स्त्रिया भर्ता धर्म एव सना-
तनः ॥ ६ ॥ अकार्यकारिणं वापि पतितं वापि निर्गुणम् । स्त्री
पतिं तारयत्येव तथःऽऽत्मानं शुभानने ॥ १० ॥ योनिदुष्टस्त्रियो
नास्ति प्रायश्चित्तं हतैः सा । वाग्दुष्टे विहितं सद्भिः प्रायश्चित्तं
पुरातने ॥ ११ ॥ भर्तुश्छन्देन कर्तव्यं व्रतकं सर्वदा स्त्रिया ।
उपवासोपि वा सत्ये काञ्चनत्या सुकृतां गतिम् ॥ १२ ॥ कल्पा-
तरसहस्रेषु न स्त्री सा लगते गतिम् । तिर्यग्योनिसहस्रेषु पंच्यते
योनिविप्लवात् ॥ १३ ॥ यदि सा नाम गानुष्यं स्त्री लभेदसती
सती । चण्डालयोनी दुर्मेधा जायते कुक्कुराशना ॥ १४ ॥ भर्ता
देवः सदा स्त्रीणां सद्भिर्दृष्टस्तपोधने । यस्या हि तुष्यते भर्ता
सा सती धर्मचारिणी ॥ १५ ॥ कौतूहलहतानां तु स्त्रीणां लोको

स्वामीको न त्यागे यह सनातन धर्म है ॥ ६ ॥ हे शुभानने !
स्त्री अकार्य करनेवाले पतित और निर्गुण पतिको तथा अपनी
आत्माको भी तारदेती है १० योनि दूषित होनेवाली स्त्रीका तो
प्रायश्चित्त है ही नहीं वह तो नष्ट ही होजाती है प्राचीनकालके
विद्वान् पुरुषोंने दूषित भाषण करनेवाली स्त्रीका तो प्रायश्चित्त
कहा है ॥ ११ ॥ हे अरुन्धती ! सज्जनोंकी गतिको चाहनेवाली
स्त्री सर्वदा स्वामीकी इच्छासे ही व्रत उपवास आदि करे १२
दूषित योनिवाली स्त्री सहस्रों कल्पोंमें भी सुगतिको नहीं पाती
है योनिविसवके कारण वह सहस्रों पत्नियोंकी योनिमें सन्ताप
पाती रहती है ॥ १३ ॥ यदि वह असती स्त्री किसी प्रकार
गानुष्य जन्म पाजाती है तो भी वह दुर्बुद्धि स्त्री चाण्डाल योनिमें
ही उत्पन्न होती है और तहाँ उसे कुत्तोंका भक्षण करना पड़ता
है १४ हे तपोधने ! सज्जनपुरुष सर्वदा स्वामीको ही स्त्रियोंका
देवता मानते हैं जिसका स्वामी सन्तुष्ट होता है वह स्त्री
धर्मचारिणी और सती होती है ॥ १५ ॥ कौतूहल वश नष्ट हुई

न शोभनः । भर्तृर्षेव मनो यासां सद्भावेन व्यवस्थितम् ॥ १६ ॥
 कर्मणा मनसा वाचा पतिं नातिचरन्ति याः । तासां पुण्यफलं
 सौम्ये पुण्यकैः समुदाहृतम् ॥ १७ ॥ पुण्यकानां विधिं कृत्स्नं
 स्वर्लोकपतिशोभने । निबोध सह सर्वाभिर्दृष्टो यस्तपसा मया ।
 स्नात्वा स्त्री मातरुस्थाय पतिं विज्ञापयेत् सती । उपवासार्थमथवा
 व्रतकार्थं धृतव्रते ॥ १६ ॥ श्वसुराभ्यां च चरणौ सततं सत्त-
 मस्य च । ग्रहाद्यौदुम्बरं पात्रं सकुशं साक्षरं तथा ॥ २० ॥ गोशृङ्गं
 दन्त्रिणं सिन्धु प्रतिपृच्छीत तज्जलम् । ततो भर्तुः सती दद्यात्
 स्नातस्य प्रयतस्य च २१ आत्मनोऽपि निषेक्तव्यं ततः शिरसि
 तज्जलम् । त्रैलोक्यसर्वतीर्थेषु स्नानमेतदुदाहृतम् ॥ २२ ॥
 उपवासेषु कर्तव्यमेतद्धि व्रतकेषु च स्नानमेतद्धि सामान्यं स्त्रीणां

स्त्रियोंको शोभामय लोक नहीं मिलते हैं जिनका मन सद्भाव
 पूर्वक स्वामीमें ही लगा रहता है ॥ १६ ॥ जो स्त्रियें मन वाणी
 और कर्मसे पतिकी बातका उल्लंघन नहीं करती हैं हे सौम्ये !
 कहा है, कि-पुण्यकव्रतोंके द्वारा उन्हें पुण्यका फल मिलता
 है ॥ १७ ॥ हे स्वर्गलोकको शोभा देनेवाली ! मैंने तपसे पुण्यकों
 की जो विधि देखी है उस सारी विधिको आप और सब स्त्रियें
 पूर्णरीतिसे सुनो ॥ १८ ॥ हे व्रत धारण करनेवाली ! सती स्त्री
 मातृकाल उठकर स्नान करे फिर उपवास वा व्रत करनेके लिये
 पतिसे निवेदन करे सज्जन पुरुषके और सास श्वसुरोंके चरणों
 को मणाम करे और अन्नत तथा कुशाओंसे भरा हुआ गूलइका
 पात्र लेकर ॥ १६ ॥ २० ॥ गौके दाहिने सींगपर जल डाले और
 उस जलको ग्रहण करे फिर नियमपूर्वक रहनेवाले और न्हाये
 हुए अपने पतिको वह जलदेय २१ और उस जलको अपने
 शिरपर-छिड़के ऐसा स्नान त्रिलोकीके सारे तीर्थोंमें स्नान करना
 कहलाता है २२ उपवास और व्रतोंमें इसीप्रकार स्नान करना

पुंसां च भाविनि ॥ २३ ॥ अरुंधति गया इष्टं तपसा हर-
 तेनसा अशल्पविद्धं शयनमासनं च तथा विधम् ॥ २४ ॥ स्वयं
 प्रक्षालनं चापि पादयोरनुशब्दितम् । अश्रुमपातो रोपरच क्ल-
 हरच कृतः सति । उपवासाद्भवाद्वापि सद्यो अशयंति हि स्त्रियः ।
 शुक्लमेव सदा वासः प्रशस्तं चन्द्रसंभवे । अन्तर्वासोपरं चैव
 उपवासे व्रते तथा ॥ २५ ॥ पादुकार्थं तृणैः कार्यं सर्वदा व्रतके
 सति । उपवासेव्रतेचाऽपि च विधिरेव एवऽवर्तितः ॥ २७ ॥ अंजनं
 रोचनं चापि गन्धान् सुमनसस्तथा । व्रतके चोपवासे च नित्य-
 मेव विवर्जयेत् ॥ २८ ॥ दंतकाष्ठं शिरोस्नानमुद्धर्तनमथापि वा ।
 विवर्जितं मृदा सर्वं शौचार्थं तु विधीयते ॥ २९ ॥ विन्वामृत-
 फलैर्नित्यं श्रीफलैश्च साऽचरेत् । प्रक्षालनं वै शिरसः सदाऽमृन्मि-

चाहिये हे भाविनी ! स्त्री और पुरुषोंके लिये यह स्नानकी विधि
 एकसी ही है २३ हे अरुंधती! मैं ने शिवजीके तपसे और तेजसे देखा
 है, कि-स्त्रिये' इस व्रतमें कांटो रहित आसन और खाटपर शयन
 करे २४ अपने आग स्वाभीके चरणोंको धोवे हे सती! जो स्त्रियें
 क्रोधके बशमें होकर आसू गिराती हैं और कलह करती हैं उन
 स्त्रियोंका उपवास और व्रत तत्काल ही नष्ट होजाता है २५
 हे चन्द्रसंभवे ! इस व्रतमें सदा श्वेत वस्त्र पहिरना ही अच्छा-
 माना गया है और इस व्रतमें एक वस्त्र भीतर भी पहिरना
 चाहिये ॥ २६ ॥ तथा इस व्रतमें सर्वदा तिनकोंकी पादुकाएँ पहि-
 रनी चाहिये इसप्रकार इसकी विधि चलाई गई है ॥ २७ ॥ इस
 व्रतको और उपवासको करते समय सुरमा रोचन सुगन्धित वस्तुएँ
 फूल सर्वदा त्यागे ॥ २८ ॥ इस व्रतमें दंतौन शिरसे स्नान करना
 और उबटना वर्जित है तथा सब शौच गट्टीसे ही किया जाता
 है ॥ २९ ॥ सर्वदा पके हुए विन्वके फलसे और विन्वफलसे
 और हरीसे मिले हुए तथा मिट्टी न मिले हुए जलसे सर्वदा

श्रितैर्जलैः ॥ ३० ॥ शिरसोभ्यजनं सौम्ये नैव तावत् पशस्या ।
 ता पादयोर्न गात्रस्य स्नेहेनेति स्थितिः स्मृता ॥ ३१ ॥ गीयान-
 सुष्टूयानं च खरयानं च वर्जितम् । नरनस्नानं च सततं व्रते
 चाप्युपवासके ॥ ३२ ॥ नदीजल पञ्चवज पशस्त सोमनन्दिनि ।
 शुभे वद्यमो त्राप्यादौ विस्तीर्णं जलजायुने ॥ ३३ ॥ गत्वा स्नानं
 पशस्तं तु सदैव खलु सर्वथा । अलाभे त्यवरुद्धा स्त्री घटस्नानं
 समात्ररेत् ॥ ३४ ॥ नवैरच कुंभैः स्नातव्यं विधिरेव पुरातनः ।
 स्नानं च कार्यं शिरसा तपःफलमवाप्नुयान् ॥ ३५ ॥ ॐ
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे-
 ऽष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥

उपोवाच । विधिनैतेन कृतस्नेन स्त्री सदाभर्तृदेवता । चरेत्
 संवत्सरं दाता पशमासान्मासमेव च १स्त्रियो ह्यावाष्येत् साध्वी-

शिरसो धोये ॥ ३० ॥ जब तक व्रत होता है तब तक इस व्रत
 में शिर धोना अच्छा नहीं समझा जाता और चरणोंमें तथा
 शरीर पर तेल भी न मलना चाहिये ॥ ३१ ॥ बैल पर चढ़ना
 ऊँट और गधे पर चढ़ना तथा नंगा होकर स्नान करना व्रत
 और उपवासमें सदा वर्जित है ३२ हे सोमनन्दिनी ! इस व्रतमें
 नदीका जल और भ्ररनोंका जल अच्छा माना गया है कमलों
 से युक्त विस्तीर्ण जलाशयमें और त्रावड़ीमें । फिर स्नान करना
 सर्वदा अच्छा है यदि स्त्रीको पूर्वोक्त जलाशय न मिल सकें तो
 चामेँ रुबी हुई स्त्री घड़ेसे स्नान करे नवीन घड़ीसे स्नान करना
 चाहिये यह गाचीन विधि है और स्नान शिरसे करने पर तपका
 फल मिला है ॥ ३५ ॥ अथद्वत्तरवो अध्याय समाप्त ॥ ७८ ॥

उमाने कहा, कि स्वामीका देनता मानने वाली चतुर स्त्री
 इस पूर्ण विधिसे वर्षभर तक या छः महीने तक व्यवहार करे १
 और समाहित चित्त होकर ग्यारह साध्वी स्थियोंसे तुलाने में

रेकादश समाधिना । स्वयं चीव विधिर्दृष्टः व्रतकानां यतः शुभः र
 अद्रिः इत्यात् सनीः सर्वा या मूलव्रतिनी भवेत् । तासां तु भिप्
 क्रयो देवः कालदेश नुरूपतः ॥ ३ ॥ ततो मासतिशुकस्य तिथी
 च नवमी तथा ॥ आराधयित्वा कर्तव्यं व्रतकस्यापवर्जम् ॥४॥
 उपवासपहोरात्रं व्रतक चापि निश्चितम् । आदौ चाति च कुर्वीत
 व्रतकस्यापि सिद्धये ॥५॥ क्षुरकर्म ततो भर्तुरात्मानश्चैव कार-
 येत् । उस्तादनं च स्नानं च तस्मिन्नहनि संगृह्यम् ॥ ६ ॥ ततो
 विवाहनत् स्नानं विहितं पुण्यके शुभे । मण्डनं चैव विहितं
 मातृगधारणमेव च ॥ ७ ॥ कुम्भेस्तु स्नापणानेनं साध्वी वंर-

इस पुण्यकाली शुभ विधिको मैंने अपने आप देखा है २ व्रत
 करनेवाली मुख्य स्त्री (पहिले उनके स्वामियोंसे उन ग्यारह
 स्त्रियोंको खरीदकर आचार्यको) गलसे सरूप करके दान देदेय
 फिर उनका समय और देशके अनुसार मूच्य देदेय (इस प्रकार
 आचार्यसे खरीद कर उनको उनके स्वामियोंके भर्षण करदेय) ३
 तदनन्तर मासके अतिप पत्त शुक्लपक्षकी नवमी तिथिमें आग-
 धना करके व्रतको समाप्त करे ४ और इस व्रतकी सिद्धिके लिये
 आदि और अन्तमें एक दिन उपवास करे यह निश्चय बात है ५
 तदनन्तर उस दिन अपना और अपने स्वामीका तौर कर्म कर
 नावे (इस तौर कर्ममें स्त्रियोंको अपने नाखून ही कटवाने चाहिये
 शिर नहीं मुडवाने क्योंकि स्मृतिमें लिखा है कि-“सर्वान् केशान्
 समुद्घृत्वा छेदयेदंगुलद्वयम् । एवमेव हि नागीणां वपनं सर्वदा
 स्मृतम् ॥” अर्थात् सब केशोंको छोड़ कर स्त्रियोंके केश दो
 अंगुल ही कटवाने इस प्रकार उा धिोंका मुण्डन करना
 लिखा है स्त्री एा मुण्डन कर्म वा क्षुरकर्म करवावे) और
 उसी दिन स्नान और उस्तादन करे ॥ ६ ॥ तदनन्तर
 इस शुभ पुण्यकालमें विवाहकी समाप्त स्नान करनी अलंकृत

शुद्धीरयेत् । भर्तुः पादौ नगस्कृत्य मनसा वाऽथवा गिरा ॥ ८ ॥
 आपो देव्य ऋषीणां हि विश्वधाज्यो दिव्या मद्दंत्यो याः शंकरा
 धर्मधाज्यः । हिरण्यवर्णाः पानका शिवतमेन रसेन श्रेयसो मां
 जुषंतु ॥ ९ ॥ अपामेष स्मृतो मंत्रः सर्वत्रान्यत्र मे शृणु । मंत्रा
 पुराणविहिताः स्त्रीणां सर्वांगशोभने ॥ १० ॥ शुभाज्यया
 गुणिनी युक्तधर्मा भर्त्रा साकं मम दास्यावरेण । मा कर्मणा
 मनसा वापि वाचा भर्तुर्भवेद्य रूपनी स्यां वशंगा ॥ ११ ॥
 सपत्नीनामपि नित्यं भवेयं सपुत्रा स्यां सुभगा चारुरुपा ।
 संपन्नहस्ता गुणवादिनी च सर्वात्मना स्यामदरिद्रा भवेयम् १२

होना और चन्दन आदिका धारण करना कहा है ॥ ७ ॥ तद-
 नन्तर साध्वी स्त्री मनसे अथवा वाणीसे स्वामीके चरणोंमें प्रणाम
 करके घड़ेसे स्नान करती हुई इस मन्त्रको पढ़े ८ (वह मन्त्र
 ऊपर मूलमें लिखा है उसका अर्थ इस प्रकार है) जल ऋषियों
 के उत्पादक हैं (क्योंकि श्रुतिमें लिखा है, कि—“यासु जातः
 करणः—जिनमें करण उत्पन्न हुए हैं”) स्वर्गमें उत्पन्न हुए हैं
 विश्वके पोषक हैं (यज्ञमें) मदमें भरजाने वाले हैं सुख देनेवाले
 हैं क्योंकि—धर्मके पोषक हैं निर्मल हैं अग्निस्वरूप है वे अपने
 श्रद्धाणकारी रससे मुझे प्रसन्न करें ९ जलोंका यह मन्त्र
 सर्वत्र कहा है, हे सर्वांगशोभने ! अब स्त्रियोंके पुराणविहित
 मन्त्रोंको सुन १० मैं खर्च करने वाली न होऊँ गुणवती होऊँ
 स्वामीके साथ धर्मचारिणी होऊँ और नीच कर्ममें भी दासीकी
 समान कर्म करनेवाली होऊँ मैं क्रोधके वशमें होकर अपने
 स्वामीसे मन वाणी और कर्मसे भी क्रोध न करूँ ११ मैं अपनी
 सौतेलोंके ऊपर रहूँ पुत्रवती सौभाग्यवती और मनोहर रूपवाली
 रहूँ मेरा हाथ सर्वादा सम्पन्न रहे अर्थात् अन्न आदिका दान
 करनेमें मूला रहे मैं गुणमय भाषण करने वाली होकर सन

पतिश्च मे स्यात् सुमुखो मत्तनीतो नित्यं मद्भक्तः स्यान्मन्मति-
 र्मृदुतिश्च । प्रीतिश्च नौ स्याच्चक्रवाकानुष्णा मनो विरागो न
 भवेत् साधुवत् स्यात् ॥ १३ ॥ लोकान् साध्वीनामुत्तमानां व्रजेयं
 व.भिः सर्वं धार्यते विश्वरूपम् । उभे कुले याः पावयन्ति पितु-
 भंतुश्च पतिभक्त्योर्भितारश्च ॥ १४ ॥ भूमिर्वायुर्जलमाकाशमग्नि-
 रतः क्षेत्रज्ञः प्रकृतिर्यो महाश्च । अहंकारश्च मम साक्ष्ये नियुक्ताः
 स्परेयुः निश्चर्यं च व्रतं च ॥ १५ ॥ यैरारब्धो देहिनां भौति-
 कोऽयं विधिः सत्वाद्यैर्भूतयुक्तैः सवीजैः । संत्वेते मे साक्षिणः
 सर्वसंस्था व्रते चास्मिन्निश्चये चापि नित्यम् ॥ १६ ॥ चन्द्रा-
 दित्यौ पुण्यसाक्षी यमश्च दिशः सर्वा दश चात्मा च मेऽयम् ।

प्रकारकी दरिद्रतासे मुक्त रहूँ १२ मेरे स्वामी सुन्दर मुखवाले
 मेरी मतीक्षा करनेवाले सर्वदा मेरे भक्त मेरी बुद्धिके अनुसार
 काम करनेवाले और मेरी गति हों और हम दोनों में चकवी
 चक्रवेहीसी प्रीति रहे हम दोनोंके मनमें कभी विराग उत्पन्न न
 हो और हमारा मन सर्वदा साधुकी समान रहे । १३।
 जो सारे संसारकी धारण किये रहती हैं जो स्वामीके और
 पिताके इसप्रकार दोनों कुलोंको पवित्र करती हैं और जो पति-
 भक्तिसे बलवान् रहती हैं ऐसी उच्च साध्वी स्त्रियोंके लोकोंमें
 मैं जाऊँ ॥ १४ ॥ भूमि, वायु, जल, आकाश अग्नि (इनके
 अभिमानी देवता) जीव प्रकृति और महत्तत्त्व तथा अहंकार यह
 मेरा निरीक्षण करनेके लिये नियुक्त हुए व्यक्ति मेरे निश्चय और
 व्रतको स्मरण करते रहें । १५। भूतयुक्त अर्थात् जरायुज आदि
 सम्बन्धवाले प्राणीको कर्ममें प्रवृत्त करनेवाले सत्त्वादिके अभि-
 मानी देवता प्राणियोंके भौतिक शरीरका आरम्भ करते हैं वे
 सबमें स्थित देवता इस व्रतमें और मेरे विचारमें सर्वदा साक्षी
 रहें १६ इस व्रतमें और मेरे सर्वदाके विचारमें सबमें स्थित चन्द्रमा

सत्वेते वै सन्निः । सर्वसंस्था व्रते चास्मिन्निश्चये चापि नित्ये ७
मन्त्रैरेतैः पुराणोक्तैः सर्वद्रव्यमिमंत्रणम् । व्रतचर्मात् प्रभृति
चैः पुराणे समुदाहृतम् ॥ १८ ॥ स्नात्वाऽथ चाससी दद्याद्भर्तुः
कर्त्तव्यं स्वयं शुभे । अथात्मकर्तितं न स्याच्छुभे विघ्नेन केनचित् १९
चासोऽन्यदेव दद्याच्च श्वेतं मुख्यं नवं शुचि । स्वकर्तितं च सूत्रं
चाससा तेन मिश्रयेत् ॥ २० ॥ ततो द्विजं शुचिं दातं ज्ञान-
विज्ञानकोविदम् । भोजयेच्च यथाशक्त्या सह भर्त्रा सुगन्धमे २१
ब्राह्मणस्यापि दातव्यं चासो युग्मं महातपे । शय्यासनं गृहं
धान्यं दासं दासीं तथैव च ॥ २२ ॥ अलंकारः शक्तिश्च स्न-
पर्वत एव च । सर्वान्यसमुन्निश्चितैश्च सविशेषतः ॥ २३ ॥
बाभोभिरश्च मनिच्छन्तो नानान्येषैरुच्यन्ति । हस्त्यश्वावचयश्चैव
देवा गौरेव च ध्रुवम् ॥ २४ ॥ लक्षणप्रतिमां दद्यान्नवनीतस्य

सूर्य पुण्ड्रिका साक्षी गण सम्पूर्ण दशों दिशाएँ और यह मेरा
पन साक्षी रहे ॥ १७ ॥ पुराणमें लिखा है व्रतका आरम्भ कर
प्रतिदिन इस पुराणोक्त मंत्रोंसे सब द्रव्योंको अभिमन्त्रण करती
रहे १८ हे शुभे ! तदनन्तर भर्ता का तौर आदि अपने आप करा
कर स्नान करके उनको दो वस्त्र देय हे शुभे ! किसी विघ्नके
कारण अपना तौर न करासके ॥ १९ ॥ तो एक और नया
पवित्र श्वेत वस्त्र देय और उस वस्त्रसे अपने काटे हुए
सूत्रसे उस वस्त्रको गिलावे ॥ २० ॥ हे सुगन्धमे ! तदनन्तर
माने स्नायीके साथ ज्ञान विज्ञानमें चतुर पवित्र ब्राह्मणको
शक्तिके अनुसार जिगावे २१ हे महातपे ! ब्राह्मणको भी दो
वस्त्र शय्या आसन घर और दास दासी देने चाहिये २२ और
शक्तिके अनुसार अलंकार सब धान्योंसे और विशेषकर गिलोंसे
पिना हुआ स्वोंका डेर भी (देय) २३ (भीभव होने पर) अनेक
वर्णोंकी मूलोंसे कृष्ण हुआ हाथी घोड़ोंका समूह देना चाहिये

चापराम् । गुडस्य मधुनश्चैव सुवर्णस्य च शोभनाम् ॥ २५ ॥
 तथैव सर्वगन्धानां रसानां पृथगेव च । तथा सुमनसां दद्याद्रूप-
 स्यादुम्बरस्य च ॥ २६ ॥ फलानां चैव सर्वेषां वाससापि
 नन्दिनि । चित्रप्रतिकृतिं चैव काष्ठस्य प्रतिगां तथा ॥ २७ ॥ शिलां
 प्रतिकृतिं चैव दध्नीऽथ पयसस्तथा । सर्पिणां दूर्गया चैव या
 चान्वागप्यभीष्टिनि रत्नकालदेशानुरूपं च देयं विभवतः सति ।
 अन्यं वा बहुलं नापि भर्तुश्चन्देन सर्वदा २८ तिलपात्रं प्रदातव्यं
 न देयं न तु शोभने । गौस्त्ववश्यं प्रदातव्या कपिला कास्पमेव
 च ३० कृष्णाग्निं च सुभगे सतिलं वाससान्वितम् । आदशश्चैव
 कूर्चश्च तथाऽजिनमर्निदिते ॥ ३१ ॥ एतदन्वा सर्वकामान्प्राप्नोति
 वरवर्णिनि । पुरोधिका पुत्रवती सुभगा रूपभागिनी ॥ ३२ ॥
 मृष्टहस्ता धनाढ्या च स्त्री भवत्यमलेक्षणा । इच्छया लभते चैव

(अन्वया) हे अरुन्धती ! गौं तो अवश्य देनी चाहिये २४
 नमक और मङ्गलन गुड़ सुवर्ण और शहदसे (उमा महेश्वरकी)
 प्रतिमा बनाकर देय २५ और सब प्रकारके चन्दन रस पुष्प
 चाँदी और गूतइसे भी महादेव और पार्वतीकी प्रतिमा बनाकर
 देय २६ सब फल वस्त्र काष्ठसे प्रतिमा बनाकर और चित्र भी
 देय २७ शिला दही दूध घी दूध तथा और जिस वस्तुसे भी
 चाहे उससे प्रतिमा बनाकर देय २८ और स्वामीकी आज्ञा
 लेकर वैभवानुसार हे सती ! देशकालके अनुरूप (धन) देना
 चाहिये २९ तिलपात्रका दान देय हे शोभने ! स्वामीकी इच्छाके
 बिना कुछ न देय, कपिला गौ और फौसीका पात्र अवश्य देय ३०
 हे सुभगेसती ! कृष्णमृगका चर्म तिल और वस्त्र दण्ड्य मोर्छल
 तथा चर्म भी देना चाहिये ३१ हे वरवर्णिनी ! इन वस्तुओंको
 देनेसे सब कामनाएँ पूर्ण होती हैं और वह स्त्री अग्रगण्य पुत्र-
 वती सौभाग्यवती और रूपवती होती है ३२ उस निर्मल नेत्रों-

कन्या रूपगणोचिताः ॥ ३३ ॥ भवंत सुभगारचर्गास्तथैव च
पुरोधिकाः । पुत्रवत्यो धनाढ्याश्च शीलवत्पश्च नित्यदा ३४
अरुंधतीकृतं ह्येतन्नृगदीव मथमं यतः । उमाव्रतकमित्येव ख्यात-
मत्र गहीतले ॥ ३५ ॥ एतदेवोत्तमं स्त्रीणो व्रतं तस्मात्समा-
चरेत् । सर्वकापानवाप्नोति दत्तैर्वैतदनिन्दिते ॥ ३६ ॥ एत-
द्भ्राकरो ह्येव देवदेवो वृषभ्वजः । पुरोऽभिपिक्तवान् साम्ये
पिगार्थं मग सर्वकृत् ॥ ३७ ॥ व्रतकस्यावसानेऽथ देवं भोऽयं च
नित्यदा । स्त्रीणां कामाः पदेयश्च सदृशाः कालदेशयोः ३८
एकैरुस्य प्रदातव्यं व्रतक वरवर्णिनि । छंदनो ब्राह्मणानां तु
देगमन्नं सदक्षिणम् ॥ ३९ ॥ पागसं तत्र दातव्यं व्रतकेनान्य-
दिष्यते । नात्र प्राणिवधः कार्यः पुराणं नियता श्रुतिः ॥ ४० ॥

वाली स्त्रीका हाथ साफ रहना है और वह धनाढ्य होती है
और इच्छानुसार रूपगुणयुक्त कन्याओंको पाती है ॥ ३३ ॥
ऐसी स्त्रियों सौभाग्यवती सदावरणवाली मुखिया पुत्रवती
धनवती और सर्वादा शीलसम्पन्न होती हैं ॥ ३४ ॥ हे अरु-
न्धती ! इस व्रतको पहले मैंने ही किया है इस लिये यह
व्रत पृथ्वीमें उमाव्रतक नामसे मसिद्ध होगा ॥ ३५ ॥ यह स्त्रियोंके
लिये उत्तमव्रत है इस लिये इसको करना च हिये हे अनिन्दिते !
इसको करनेसे सब कामनाएँ मिलती हैं ॥ ३६ ॥ हे साम्ये !
देवदेव वृषभ्वजने इस व्रतको रचा है उन्होंने मेरा प्रिय करनेके
लिये इस व्रतसे अभिप्रेक किया था ॥ ३७ ॥ इस व्रतके अन्तमें
भोग्य पदार्थ सर्वादा देने चाहिये और स्त्रियोंको देशकालके
अनुसार उनकी सब इष्ट वस्तुएँ देनी चाहिये ॥ ३८ ॥ हे वर-
वर्णिनी ! व्रतकी सामग्री मत्स्यके विभाग करके देनी चाहिये
और ब्राह्मणोंको इच्छानुसार दक्षिणा और अन्न देना चाहिये ३९
इस व्रतमें दूध देना चाहिये दूसरी वस्तु न देनी चाहिये इस व्रतमें

अथ द्वितीयं वक्ष्यामि व्रतं सोमसमुद्भवे । महादेवप्रसादेन दृष्ट-
वत्पस्मि गच्छुभे ॥ ४१ ॥ सर्वाः पुत्रफला नार्यः सद्भिरेतदुदा-
हनम् । तस्मादन्विष्यती दद्यात् सपुत्रकरकान् शुभे ॥ ४२ ॥
ज्येष्ठप्राढी शुभो मासो पुरोक्तं विधिमाचरेत् । अथवा ज्येष्ठ-
मेनै रूपापाढं वा समाचरेत् ॥ ४३ ॥ ततो मासद्वये पूर्णं मासे वा
वरवर्णिनि । सपुत्रकरकान्दद्याद्द फाणितपतिपूरितान् ॥ ४४ ॥
सर्पिः पयसश्चैव दध्नोऽथ मधुनोऽनघे । जलस्य च तथा दद्यात्
पूरयित्वा शशिप्रभे ॥ ४५ ॥ एकस्मै ज्ञानवृद्धाय सुव्रताय
जितात्मने । सपुत्रकरकान् दद्याद्यावन्तो मनसः प्रियाः ॥ ४६ ॥
इच्छेत स्त्री दुहितरं स्त्रीणां कामकरं ततः । किञ्चिद् द्रव्यं सुता-
कामात् सुतां मामोत्पसंशयः ॥ ४७ ॥ गौर्वथ काचनं वापि

प्राणिगोका वध नहीं करना चाहिये यह पुराणकी निश्चित श्रुति
है ४० हे अरुन्धती ! मैंने महादेवजीके प्रसादसे जिस दूसरे व्रत
को देखा है उसको मैं तुमसे कहती हूँ ४१ सज्जनोंने कहा, है
कि—सब स्त्रियों पुत्ररूपी फलको चाहा करती हैं हे शुभे ! पुत्रों
को चाहने वाली स्त्री सपुत्र करकोंका अर्थात् करुओंका दान
करे ४२ और शुभमास ज्येष्ठ तथा आपाढ़में पहले कही हुई विधि
को करे या ज्येष्ठ वा आपाढ़ मासमें ही करे ४३ हे वरवर्णिनी !
फिर दो मास पूर्ण होने पर शर्वतसे भरे हुए करुओंका दान
देय ४४ अथवा हे चन्द्रमाकी समान कान्ति वाली ! निष्पाप
अरुन्धती घी दूध दही शहद अथवा जलसे भरे हुए करुए देय ४५
अथवा एक जितात्मा सुन्दर व्रत धारण करने वाले ज्ञानवृद्ध
पुरुषको मनमें जितने चाहें उनसे करुए देय ४६ जो स्त्री पुत्रीकी
इच्छा करती हो वह स्त्री इच्छाको पूर्ण करने वाले कुछ द्रव्यका
दान देनेसे पुत्रीको अवश्य ही उत्पन्न करती है ॥४७॥ हे पवित्र
हास्य वाली! गौ सुवर्ण दक्षिणा और ब्राह्मणके ओढ़नेके लिए

दक्षिणारचैव शस्यते । विप्रस्याच्छादनं देयमवश्यं तु शुचिस्मिते ।
यज्ञोपवीतं व्रतके दद्यान्नारी शुचिव्रता । सपुत्रकरकायां तु विधि-
रुक्तो विपश्चिता ॥४६॥ अपत्याख्यानयोगेन ब्राह्मणेभ्यः शुचि-
व्रता । सम्बत्सरं सुसम्पूर्णं व्रतधर्मानुपालिनी ॥५०॥ करका-
नपि दद्यात् च पूर्णं सम्बत्सरे शुभे । अनुज्ञया सदा भर्तुः सत्य-
वादिन्यरुन्धति ५१ सुवर्णसूत्रं विधाय कौमुद्यां दातुमर्हति । यज्ञो-
पवीतं विप्रस्य व्रतं संस्थाप्य कामिकम् ॥५२॥ यज्ञोपवीतं करकं
दक्षिणां च स्वशक्तितः । प्रयच्छती सती स्त्रीभ्यः सर्वान् कामान्
समश्नुते ॥५३॥ नवं न भक्षयेत् किञ्चिन्नारीधान्गमथो फलम् ।
पुष्पाणि नोपयुञ्जीत यः न देवं समाचरेत् ॥ ५४ ॥ एकभक्तेन
धर्मज्ञे पुण्यकं कर्तुमर्हति । ब्राह्मणाग तथा देवं भर्तुश्च तदन-

वस्त्र अवश्य देना चाहिये ॥ ४८ ॥ पवित्र व्रत वाली स्त्री इस
व्रतमें यज्ञोपवीतका दान करे, विद्वान् पुरुष इसमें करुओंके दान
करनेकी विधि बतलाते हैं ॥ ४६ ॥ व्रतधर्मका पालन करने वाली
स्त्री साल भर तक (पुत्रकी कामना हो तो पुरुषनाची पुष्प आदि
नक्षत्रके योगमें और पुत्रीकी कामना वाली स्त्रीनाची रोहणी
आदि नक्षत्रके योगमें इस प्रकार) अपत्याख्यानयोगसे करुओं
का दान देय ॥ ५० ॥ हे सत्यवादिनि अरुन्धती ! वर्ष भर पूर्ण
होने पर स्वामीकी आज्ञा लेकर करुओंका दान देय ॥ ५१ ॥ इस
कामिकव्रतको कार्तिकी पूर्णिमाके दिन समाप्त करके ब्राह्मणको
सुवर्णके सूत्रों वाला यज्ञोपवीत देना उचित है ॥५२॥ जो सती
स्त्री अपनी शक्तिके अनुसार यज्ञोपवीत करुए और दक्षिणा देती
है उसकी सब कामनाएँ पूर्ण होती हैं ५३ स्त्री जिस समय तक
इस व्रतको करे तब तक किसी नवीन (द्विदल) अन्न वा फलका
भक्षण न करे ॥ ५४ ॥ हे धर्मज्ञे ! पुण्यक व्रत एक समय भोजन
करके करना चाहिये इसी प्रकार ब्राह्मण और स्वामीको भोजन

न्तरम् ॥ ५५ ॥ एवं सम्बत्सरं कृत्वा सुभगा रूपशालिनी ।
 भक्त्यविधवा चैव स्त्री धनस्य तथेश्वरी ॥ ५६ ॥ वार्ताकानि
 न खादेद्या स्त्री पूर्णं परिवत्सरम् । न सा पुत्रविनाशं हि पश्य-
 तीत्यवगम्यताम् ॥ ५७ ॥ शशकं मृगमांसं वा नित्यमेव विवर्ज-
 येत् । नामोति मरणं नारी प्रामोति पतिदेवताम् ॥ ५८ ॥
 अलाबुं वर्जयेन्नारी तथैवेत्पादिकापि । अलाबुं कांचनीं दद्याद्या
 भर्तुः सुखमिच्छती ॥ ५९ ॥ पूर्णं सम्बत्सरे दद्यादेकैकं शाक-
 माहता । सदक्षिणं पुत्रवती भवत्येका पुरोधिका ॥ ६० ॥ स्वयं
 प्रक्षालयाना स्त्री स्वपादावेचमादितः । मतिष्ठां लभते नित्य-
 गुद्रेण नाधिगच्छति ॥ ६१ ॥ दिवा वा सूर्यपूतेन वर्तयेत् स्त्री
 पतिव्रता । एकं सम्बत्सरं पूर्णं रात्राचन्नं विवर्जयेत् ॥ ६२ ॥

देना चाहिये ॥ ५५ ॥ इस प्रकार वर्ष भर तक वर्ताव करने
 के अनन्तर स्त्री सौभाग्यवती रूपवती अविधवा और धनकी
 ईश्वरी होती है ॥ ५६ ॥ जो स्त्री वर्ष भर तक वैगन नहीं खाती
 है, वह स्त्री पुत्रका विनाश नहीं देखती है, यह समझ रखना
 चाहिये ॥ ५७ ॥ खरगोश और मृगके मांसको सर्वथा त्याग देय
 ऐसा करने वाली स्त्री अल्पायु नहीं होती है और पतिव्रता
 रहती है ॥ ५८ ॥ स्त्री अलाबु (रामतुरई) और उत्पादिका
 (पोई) को त्याग देय और भर्ताका सुख चाहने वाली स्त्री
 सुवर्णकी रामतुरई देय ॥ ५९ ॥ जो स्त्री वर्ष भर पूर्ण होने पर
 आदरपूर्वक दक्षिणा और एक २ शाक देती है वह पुत्रवती और
 अग्रणीया होती है ॥ ६० ॥ जो स्त्री मारंभसे ही अपने चरणों
 को अपने आप ही धोती है, वह स्त्री मतिष्ठा पाती है और कभी
 उद्विग्न नहीं होती है ॥ ६१ ॥ जो पतिव्रता स्त्री सूर्यसे पवित्र
 हुए दिनमें भोजन करती है और एक वर्ष भर तक रात्रिमें अन्न
 खाना छोड़ देती है ॥ ६२ ॥ हे धरवर्णिनि ! वह जीवित पुत्रों

सजीवपुत्रा सुभगा भवत्यमरवर्णिनि । अधितिष्ठत सर्वाश्च स-
पत्न्यो नात्र संशयः ॥ ६३ ॥ पूर्णं सम्बत्सरे दद्यात् सुवर्णं
सूर्यमुत्तमम् । ब्राह्मणायामिच्छाय द्रिद्राय यशस्विने ॥ ६४ ॥
फलानि वाऽथ पुष्पाणि भक्ष्याण्यपि च सुव्रता । दद्यादनस्त-
मितके चरितव्रतका तथा ॥ ६५ ॥ या तथाऽस्तमिते सूर्ये भुंक्ते
स्त्री नियता सती । चन्द्रनक्षत्रपूतानि भोजयानि वरवर्णिनी ६६
सा दद्यात् कांचनं चन्द्रं नक्षत्राणि ग्रहानपि । अभिरूपाय विनाय
वासश्च लवणान्वितम् ॥ ६७ ॥ चन्द्रशीतलगात्री सा भवत्यमर-
वर्णिनि । सुभगा दर्शनीया च पुत्रवत्यपि भाविनी ॥ ६८ ॥
पौर्णमास्यां तु सततं मासे सोमोदयेऽगना । अर्घ्यं दद्यात् सुमनसां
सात्ततं सकुशं तथा ॥ ६९ ॥ पात्रकं च वलिं दद्याद्दध्ना च सह
संयुतम् । एवं या कुरुते नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् ॥७०॥

वाली और सौभाग्यवती होती है और सब सौतोंके ऊपर अधि-
ष्ठित रहती है, इसमें कुछ संदेह नहीं है ॥ ६३ ॥ सालभर पूर्ण
होने पर दरिद्री यशस्वी योग्य ब्राह्मणको सुवर्णका एक उत्तम
सूर्य बना कर देय ॥ ६४ ॥ व्रत करने वाली स्त्री सूर्यास्त होने
से पहिले फल पुष्प और भक्ष्य पदार्थोंको देय ॥ ६५ ॥ (दूसरे
व्रतका वर्णन) हे वरवर्णिनि ! जो नियम पालन करने वाली
स्त्री सूर्यास्त होने पर चन्द्रमा और नक्षत्रोंसे पवित्र भोजन करती
है ॥ ६६ ॥ वह स्त्री योग्य ब्राह्मणको सुवर्णके चन्द्रमा नक्षत्र
और घर बना कर देय और नमक भी देय ॥ ६७ ॥ हे अमर-
वर्णिनि ! तो वह स्त्री चन्द्रमाके समान शीतल शरीर वाली
सौभाग्यवती दर्शनीया और पुत्रवती होती है ६८ स्त्री पूर्णिमा
के दिन चन्द्रमाका उदय होने पर पुष्प अन्नत और कुशाओंका
अर्घ्य देय ॥ ६९ ॥ और अग्निको दधि मिला हुआ बलि देय
जो स्त्री ऐसा करती है उसकी सब कामनाएँ पूर्ण होती हैं ७०

अहृष्टा या तु नाशनाति सूर्यं नारी पतिव्रता । दुर्दिने चास्थवा
व्यभ्रे सेष्टान् कामानवाप्नुयात् ॥ ७१ ॥ फांचनं शक्तितो दद्यात्
सा विमाय मनस्विनी । सुभगा दर्शनीया च भवत्यमरवर्णिनी ७२
इति श्रीमहाभारते स्विलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे
व्रतकथनं नामैकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥

भगवत्युवाच । निर्वेष्टव्यं शरीरं चैर्त्रतकैः पुण्यकैरपि । अरु-
न्धति प्रवक्ष्यामि सहैताभिर्वरेण तु ॥ १ ॥ कृष्णाष्टमीं या त्तिपति
स्थादा मूलफलाशिनी । ब्राह्मणायैकमशनं स्वं दत्त्वा भर्तृदेवता २
शुक्लवस्त्रा शुभाचारा गुरुदैवतपूजका । एवं सम्बत्सरं कृत्वा
ततो दद्याद् द्विजातये ॥ ३ ॥ गोबालरज्जुसुकृतं चागरं च ध्वजं
तथा । दक्षिणापूर्णमिष्टान्नं शक्त्या वापि शुचिव्रते ॥ ४ ॥ ऊर्मि-

जो पतिव्रता स्त्री भ्रष्टोंसे घिरे हुए दिनमें सूर्यका दर्शन किये
बिना भोजन नहीं करती है उसको इष्ट वस्तुएँ मिलती हैं ॥ ७१ ॥
हे वरवर्णिनी ! ऐसी मनस्विनी स्त्री ब्राह्मणको शक्तिके अनु-
सार सुवर्ण देय तो वह सौभाग्यवती और दर्शनीय होती है ७२
उनासीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥

भगवतीने कहा, कि-हे अरुन्धति ! जिन व्रतोंसे और पुण्यों
से इस शरीरमें, परमसुख पानेका पात्र बनाया जासकता है उन
को मैं इन (तिथियों) के साथ और इस श्रेष्ठ (धर्मानुष्ठान)
के साथ कहती हूँ ॥ १ ॥ जो स्वामीको देवता मानने वाली
स्त्री कृष्ण पन्नकी अष्टमीके दिन फल और मूलका भक्षण कर
उपवास करती है और अपना एक समयका भोजन ब्राह्मणको
देदेती है ॥ २ ॥ शुक्ल वस्त्र धारण करती है, शुभ आचारोंका
पालन करती है और गुरु तथा देवताओंकी पूजा करती है और
इस प्रकार वर्ष भर तक व्यवहार करके ब्राह्मणको गोबालही
रज्जुमें भली प्रकार बनाया हुआ चागर चमर ध्वजदण्ड और

वन्तस्वरालम्नाः श्रोणिदेशावलम्बिनः । तस्या भवन्ति केशास्तु
भक्तिमत्या हि भर्तरि ॥ ५ ॥ शिरो निर्बेण्डुकाया तु गोमयेन
शिरः सती । प्रक्षालयेन्मलं धात्र्या विचित्रेन श्रीफलेन च ॥६॥
गोमूत्रं च सदा प्राशयेच्छिरः स्नानं च मिश्रयेत् । कृष्णां चतु-
र्दशीं त्वेतत् कर्तव्यं वरवर्णिनि ॥ ७ ॥ भवत्यविधवा चैव
सुभगा विज्वरा तथा । शिरोरोगैर्नैव चास्याः शरीरमभितप्यते
दर्शनीयं ललाटं या कान्तति स्त्री शुचिस्मिते । तिथिं प्रतिपदं
नित्यं सा क्षिपेदेकभोजना ॥ ८ ॥ पयसा च तथाऽशनीयाद्यावत्
सम्बत्सरो गतः । ब्राह्मणाय ततो दद्यात् पदं रूप्यमयं शुभम् १०
ललाटं रूपसम्पन्नमाप्नोति स्त्री सुमध्यगा । सततं स्त्री द्वितीयार्या

दक्षिणा तथा शक्तिके अनुसार इष्ट अन्न देती है ॥ ३ ॥ ४ ॥
उस स्वामीमें भक्ति रखने वाली स्त्रीके केश अति कुटिल अग्रभाग
वाले घुँघगले और नितम्बों तक लटकने वाले होते हैं ॥ ५ ॥
सती स्त्रीको शिर धोनेकी इच्छा हो तो गोबर आपले और श्रीफल
तथा विज्वफलसे शिरको धोवे ॥ ६ ॥ सदा गोमूत्रका प्राशन
करे और उसे स्नान (के जल) में भी गिलावे, हे वरवर्णिनि !
इस प्रकारका व्यवहार कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन करे ॥ ७ ॥
ऐसा करने वाली स्त्री विधवा नहीं होती है सौभाग्यवती
और ज्वररहित होती है और उसका शरीर शिरके रोगोंसे
सन्तप्त नहीं हुआ करता है ॥ ८ ॥ हे शुचिस्मिते ! जो स्त्री
अपनी ललाटको दर्शनीय बनाना चाहती हो वह प्रतिपदामें
एक समय भोजन कर व्रत पाले ॥ ९ ॥ और जब तक
साल भर पूर्ण हो तब तक वह रमणी दुग्धका भोजन करे,
अन्तमें ब्राह्मणको चाँदीका बना हुआ पद (शिरोभूषण)
देय ॥१०॥ ऐसी स्त्रीका ललाट (अगले गन्गमें) रूपवान् होता
है और उसकी कमर अच्छी होती है, स्त्री सदा दूसरी स्त्रियोंसे

ध्रुवोरिच्छेत् सुरूपताम् ॥ ११ ॥ अनन्तरोपवासेन शाकभक्ता-
 शना सती । ततः सम्बत्सरे पूर्णे ब्राह्मणं स्वति वाचयेत् ॥ १२ ॥
 फलैः परिणतैः सौम्यैर्पापाणां दक्षिणान्वितैः । लवणेन च भद्रन्ते
 घृतपात्रेण चानघे ॥ १३ ॥ आत्मनः शोभनीं कर्णाविच्छेतीं स्त्री
 सुपथ्यया । नक्षत्रे श्रवणे प्राप्ते ध्रुवं भुञ्जीत यावकम् ॥ १४ ॥
 ततः सम्बत्सरे पूर्णे कर्णौ दद्याद्विरण्मयो । घृते प्रक्षिप्य विमाय
 पयसा सहिते शुभे ॥ १५ ॥ नासामिच्छेत्कलाटांतागव्यग्रां
 व्याधिवर्जिताम् । तिलगुग्गुं सदा सिंचयेद्यावत्पुष्पेद्धि रक्षितः १६
 अनन्तरोपवासेन सेक्तव्यः सलिलैः सदा । तस्मादवाप्य पुष्पाणि
 घृते प्रक्षिप्य दापयेत् ॥ १७ ॥ स्वस्ती भवेयमिति या स्त्री कान्त-
 त्यमृतोद्भवे । अनन्तरं वै भुञ्जाना पयसाऽथ घृतेन वा ॥ १८ ॥

अपनी भौ सुन्दर होनेकी इच्छा करे ११ (और ऐसी स्त्री)
 हे निष्पापे ! एक दिन बीचमें छोड़ कर शाक और भातका
 आहार करे फिर साल भर पूर्ण होने पर वह स्त्री ब्राह्मणसे
 सुन्दर पके हुए फल, सुवर्णके मासेकी दक्षिणा और लवण तथा
 घृतपात्रके द्वारा स्वास्तिवाचन करावे ॥ १२ ॥ १३ ॥ जो सुमध्यमा
 स्त्री अपने कानोंको अच्छा बनानी चाहती हो वह स्त्री श्रवण
 नक्षत्र आने पर यावक अर्थात् जोके पदार्थोंका भोजन करे १४
 हे शुभे ! तदनन्तर वर्ष भर पूर्ण होने पर वह स्त्री सुवर्णके
 कान बना उनको घीमें डाल ब्राह्मणोंको देय और साथमें दूध
 भी दे १५ जो चाहें कि-मेरी नाक ललाट पर्यन्त हो व्याधि
 रहित हो और तिरछी न हो वह स्त्री जब तक तिलका पीघा
 पुष्ट न हो तब तक उसको जल दिया करे १६ एक दिन बीच
 में छोड़ कर उपवास करती हुई उसको जलसे सर्वदा सींचे फिर
 उस परसे पुष्प उतार कर उन पुष्पोंको घीमें डालकर दानदे १७
 हे चन्द्रमासे उत्पन्न हुई कामिनी ! जो स्त्री सुनेत्रा होना चाहे

ततः सम्बत्सरे पूर्णे पद्मपत्राणि पण्डिता । तथैवात्पलपत्राणि
 न्यसेत् क्षीरे शुचिस्मिते ॥१६॥ प्लवगानानि विप्राय ततो दद्यात्
 सती सति । कृष्णसारसगानाक्षी तदत्वा भवति स्म वी ॥२०॥
 इच्छेदोष्ठौ चारुरूपां या स्त्री धर्मगुणान्विता । सा मृन्मयेन त
 पिवेदुदकं वतारं सती ॥ २१ ॥ अयाचितेन भुञ्जीत नवम्यां
 धर्मभागिनी । ततः सम्बत्सरे पूर्णे विद्रुमं दातुमर्हति ॥२२॥ तेन
 विवफलाभौष्ठी स्त्री भवत्येव शोभने । सुभगाऽथ वपुःपुत्रधना-
 दद्यात् गोमती तथा ॥ २३ ॥ या चारुरूपानिच्छेत् दन्तानमर-
 वणिनि । शुक्लाष्टमीं न साऽशनीयाद्भक्तद्वयमनिन्दितः ॥ २४ ॥
 ततः सम्बत्सरे पूर्णे दद्याद्द्रौप्यगयान् सती । दन्तान् प्रक्षिप्य
 धर्मज्ञे पयस्वतिगुणोदिते ॥ २५ ॥ तेन सा जातिपुष्पाभान्

वह स्त्री एक एक दिन छोड़ कर घृत मिले हुए पदार्थोंका भोजन
 करे १८ इस प्रकार वर्षभर पूर्ण होने पर वह पण्डिता स्त्री कमल
 के पत्तोंको दुग्धमें डाले हे पवित्र हास्यवाली सती ! फिर उस दूध
 में भीगे हुए पत्तोंको ब्राह्मणके अर्पण कर इस प्रकार दान करनेसे
 उस स्त्रीके नेत्र कृष्णसार (मृग) के समान हो जाते हैं २० जो
 धर्मवती स्त्री अपने ओठोंको सुन्दर बनाना चाहे वह सती स्त्री
 सालभर तक मट्टीके पात्रमें जल पिये २१ और वह स्त्री दशमीके
 दिन विना मांगे हुए मिला हुआ अन्न खावे, और जब वर्षभर
 पूरा होजाय तब मूँगेका दान करे २२ ऐसा करनेसे स्त्री विम्ब-
 फलके समान ओष्ठवाली पुत्रवती धनवती और गौडवाली
 होती है हे अपरवणिनि ! जो स्त्री यह चाहेकि मेरे दाँत सुन्दर
 वर्ण वाले हों वह अनिन्दित स्त्री शुक्ल पत्रकी अष्टमीके दिन
 दोनों समय भातका भोजन न करे २३-२४ इस प्रकार साल
 भर पूर्ण होने पर हे धर्मज्ञे ! वह सती स्त्री अति माँड़े दूधको चाँदी
 के दाँत डाल कर उनका दान करदे २५ हे निष्पापे ! इस पुण्य

दन्तान् प्राप्नोति सा सती । सौभाग्यमपि चाप्नोति सपुत्रत्वं
 तथाऽनघे ॥ २६ ॥ सर्वमेव सुखं कान्तमिच्छेद्या रुचिरानने ।
 सा पूर्णमास्यां स्नात्वा तु प्राप्य चन्द्रोदये शुभे ॥२७॥ यावकं
 पयसा सिद्ध द-वा विधाय भाविनी । ततः सम्बत्सरे पूर्णं
 चन्द्ररूपमयं शुभम् ॥ २८ ॥ पद्मे कुण्डले तु विन्यस्य ब्राह्मणान्
 स्वस्ति वाचयेत् । पूर्णचन्द्रमुखी तेन दानेन स्त्री शुभा भवेत् २९
 स्तनाभिच्छति या नारी तृणराजफलोपमा । अयाचितं दशम्यां
 सा निरुपगर्नीन चाग्यता ॥ ३० ॥ संबत्सरे ततः पूर्णं द्वे विन्वे
 कांनने शुभे । सद्क्षिणे ब्राह्मणाय प्रयच्छति धृतात्मने ॥ ३१ ॥
 सौभाग्यं परमाप्नोति बहुपुत्रांस्तथैव च । सदोन्नती स्तनी या
 स्त्री विभर्त्यप्ररविणिना ॥ ३२ ॥ शानोदस्त्वमिच्छन्ती क्षिपेदेकां-

के फलसे सती स्त्रीके दौत चमेलीके पुष्पकी समान आभावाले
 ही जाती है और वह स्त्री सौभाग्यवती पुत्रवती होगीहेरदहे सुन्दर
 मुखवाली स्त्री! जो स्त्री अपने सारे मुखको रमणीय बनाना चाहे
 वह स्त्री पूर्णिमाके दिन स्नान करे और चन्द्रमाका उदय होने
 पर दूधमें पनीहुई जांकी ग्दहसी ब्राह्मणको दे जब सालभर पूर्ण
 हो जाय तब चोंदीका शुभ चन्द्रमा बनाकर उसको खिले हुए
 कमलमें रखकर स्वस्ति वाचन करावे ऐसे दानसे वह शुभ स्त्री
 अगले जन्ममें पूर्ण चन्द्रमाके समान मुख वाली होती है २७-२९
 जो स्त्री अपने स्तनोंको ताड़के फलोंकी समान बनाना चाहती
 हो, वह स्त्री बाणीको नियममें रख कर दशमके दिन विना माँगे
 मिले हुए अन्नका भोजन करे ॥ ३० ॥ इस प्रकार वर्ष भर पूर्ण
 होने पर सुवर्णके दो शुभ विन्वपल वनवा कर आरमाके दशमें
 रखने वाले ब्राह्मणको देय-और साधमें दक्षिणा भी देय ॥ ३१ ॥
 हे देवताओंकी समान वर्ष वाली स्त्री! ऐसी स्त्री परम सौभाग्यवती
 सर्वदा उन्नत रहने वाले स्तनोंके और बहुत्से पुत्रोंके पाती

भोजनी । पंचम्यां तत्र भोक्तव्यमन्नं तोयेन नित्यदा ॥ ३३ ॥
 ततः सम्बत्सरे पूर्णे दद्याज्जातिलतां शुभे । फुल्लां सदक्षिणां
 धन्ये ब्राह्मणाय धृतात्मने ॥३४॥ हस्तानिच्छति या नारी रूप-
 युक्तौ सुमध्यमे । द्वादशीं सा क्षिपत्वेवं शाकैः सर्वैरनिदितैः ३५
 सम्बत्सरे ततः प्राप्ते रौक्मे पद्मे ददातु सा । ब्राह्मणायामि-
 रूभाय तथा पद्मद्वयं शुभम् ॥ ३६ ॥ श्रेणीं विशालामन्विन्देत्
 स्त्री क्षिपत्वेव सुव्रते । त्रयोदशीमेकभक्तमर्शनात्वेवमयाचितम् ३७
 ततः सम्बत्सरे पूर्णे लवणं सम्पयच्छतु । गजापतिमुखाकार
 कृत्वा तत्र वरानने ॥ ३८ ॥ कांश्चनं चैव दातव्यं तदाकारस्य
 सर्वदा । अञ्जनेन च धर्मज्ञा शनकैरवचूर्णयेत् ॥ ३९ ॥ रत्नानि
 चैव पूर्णानि वासो रक्तं च दापयेत् । तेन श्रोणीमभिमतां स्त्री

है ॥ ३२ ॥ जो स्त्री अपने उदरको पतला चाहती हो वह स्त्री
 एकान्तमें भोजन करे और पंचमीके दिन सर्वदा जलसे अन्नका
 भक्षण करे ॥ ३३ ॥ तदनन्तर हे धन्यवादके योग्य शुभ स्त्री !
 वर्ष भर पूर्ण होने पर धृतात्म्या ब्राह्मणको फूली हुई जाति
 (चमेली) की लता और दक्षिणा देय ॥ ३४ ॥ हे सुमध्यमे !
 जो स्त्री रूपवान् हाथोंको चाहती हो वह द्वादशीके दिन सब
 अनिदित शाकोंको ही खावे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार वर्ष भर पूर्ण
 होने पर वह स्त्री योग्य ब्राह्मणको सुवर्णके दो कमल और
 (सादे) दो शुभ कमल देय ॥ ३६ ॥ हे सुव्रते ! जो स्त्री अपनी
 श्रोणीको विशाल बनाना चाहे, वह रगणी त्रयोदशीके दिन
 एक समय विना गोंगे गिला हुआ भोजन करे ॥ ३७ ॥ हे वरा-
 नने ! फिर वर्ष भर पूर्ण होने पर लवणको प्रजापतिके (ब्रह्मा)
 के मुखके आकार वाला बना कर दान देय ॥ ३८ ॥ और इसी
 प्रकारकी सुवर्णकी मूर्ति बना कर देय और धर्मज्ञ स्त्री अञ्जन
 से धीरे २ चूर्ण करे ॥ ३९ ॥ पूर्ण रत्न और रक्त वस्त्र देय हे

सौम्ये प्रतिपद्यते ॥ ४० ॥ मधुरा वाचमिच्छन्ती वर्जयेत्त्वणं
 सती । सम्बत्सरं वा मासं वा मयच्छेत्त्वणं ततः ॥ ४१ ॥
 सदक्षिणा ब्राह्मणाय परं माधुर्यमिच्छती । शुक्रवाक्पाच्छतगुणं
 भवत्यमरवर्णिनि ॥ ४२ ॥ गूढगुल्फशिरो पादाविच्छन्त्या सोम-
 नन्दिनि । पष्ठ्या पष्ठ्या वरारोहे भोक्तव्यं सलिलौदनम् ॥ ४३ ॥
 अग्निर्वा ब्राह्मणो वापि न स्पृष्टव्यः पदा सदा । यदा पदापृ-
 शोत्तं च वन्देत तपसान्विते ॥ ४४ ॥ पादेन चैव पादौ तु प्रक्षालयि-
 तुमर्हति । एतैर्नित्यव्रतैर्युक्ता धर्मज्ञा पतिदेवता ॥ ४५ ॥ कूर्मो
 रूपमथो दद्याद्ब्राह्मणाय पतिव्रते । नो वराय ब्राह्मणाय स्थाप-
 यित्वा धृतेऽनघे ॥ ४६ ॥ पद्मे च चाधो मुखे कृत्वा दद्याद्विपाय
 नन्दिनि । रक्तैर्द्रव्यैर्विश्रयित्वा काञ्चनेनाभ्यलकृती ॥ ४७ ॥

सौम्ये ! ऐसा करनेसे स्त्री अभिगत श्रोणीवा पानी है ४० सती
 स्त्री मधुर वाणीकी इच्छा करे तो एक वर्ष वा एक मास तकके
 लिए लवणको त्याग देय फिर लवण देय ४१हे अपरवर्णिनि !
 परम मधुरता चाहने वाली स्त्री ब्राह्मणको लवण सहित दक्षिणा
 देय तो उसकी वाणी तोतेसे सौगुणी (गीठी) होजाती है ४२
 हे सोमनन्दिनि ! हे वरारोहे ! अपने पैरोंकी एड़ियोंके शिरको
 ढका हुआ चाहने वाली स्त्री प्रत्येक पष्ठीके दिन जल और
 भातका ही भक्षण करे ॥ ४३ ॥ ब्राह्मण और अग्निका पैरसे
 कभी स्पर्श न करना चाहिये, हे तपोयुक्ते ! यदि उनसे पैर छू
 जाय तो उनको प्रणाम करे ॥ ४४ ॥ अपने पैरोंसे ही अपने पैरों
 को धोवे, पतिको देवता मानने वाली और सर्वदा ऐसे व्रत
 (नियमों) का पालन करने वाली स्त्री ॥ ४५ ॥ हे निष्पापे !
 हे पतिव्रते ! चाँदीके बल्लुप बनवा कर उनका श्रेष्ठ ब्राह्मणको
 दान कर देय ॥ ४६ ॥ और हे नन्दिनि ! कतलोंका मुख नीचे
 को करके उनके साथमें लाल द्रव्य गिलावे और उनको सुनर्णसे

सर्वमेव तु या मात्रमिच्छत्यतिगनोहरम् । त्रिरात्रं पुष्पकाले सा
 करोतु पतिदेवता ॥ ४८ ॥ कौमुद्यामथवा पृष्ठायां माघ्यां चाश्व-
 युजे तथा । मातरं पितरं चैव मन्यतेऽतिथिदैवतम् ॥ ४९ ॥ घृतं
 च नित्यं विप्रेभ्यो ददातु लवणं तथा । समार्जनं गृहे चैव करोतु
 पतिदेवता ॥ ५० ॥ उपलेपनं च धर्मज्ञे बलिकर्म च मानिनि ।
 वाग्दुष्टा चैव मा शुभ्रे भवत्वात्मार्यरिडता ॥ ५१ ॥ पर्यशनात्
 च सा कञ्चिदपि शाकं यशास्वनी । बलिं सृजन्वतथ्यं च परित्य-
 जतु भापिनि ॥ ५२ ॥ छ छ छ छ

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि पारिजातहरणे
 व्रतकविधानेऽशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥

उगोवाच । वान्धवान् सगुणानिच्छेदेकभक्तेन नित्यदा ।
 सप्तमीं सप्तमीं नित्यं क्षपेत् स्त्री पतिदेवता ॥ १ ॥ ततः संवत्सरे
 अलंकृत करके ब्राह्मणोंको देदेय ॥ ४७ ॥ जो अपने सारे शरीर
 को अतिगनोहर बनाना चाहती हो वह पतिको देवता मानने
 वाली स्त्री पुष्पकाल (रजोदर्शन) के समय तीन दिन तक
 (ऐमा) करे ॥ ४८ ॥ कार्तिकी पूर्णिमाके दिन माघ अथवा
 आश्विनकी पृष्ठीके दिन माता पिता अतिथि और देवताका
 सत्कार करे ॥ ४९ ॥ और वह पतिदेवता ब्राह्मणोंको सर्वदा
 धी और नमक देय और घरको साफ करे ॥ ५० ॥ हे शुभे !
 हे मानिनि ! वह परिडता स्त्री अपने लिए उपलेपन और बलि-
 कर्म न करे तथा खोटी नाणिका भी उच्चारण न करे ॥ ५१ ॥
 वह यशास्विनी स्त्री किसी शाकका भक्षण करे बलि देय और
 अस्त्य बोलना छोड़ देय ५२ अस्सीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८० ॥

उगाने कहा, कि-जो स्त्री अपने बान्धवोंको गुणवान् बनाना
 चाहे वह भी पतिको देवता मानकर प्रत्येक सप्तमीके दिन एक
 समय भोजन करके अपने शरीरको क्षीण करे ॥ १ ॥ इसप्रकार

पूर्णे वृत्तं दद्याद्द्विरण्यमम् । सदन्तिणं ब्राह्मणाय शुभवन्धुमती
 भवेत् ॥ २ ॥ करञ्जे दीपकं दद्यात् सदा या प्रमदा वरे । पूर्णे
 सम्बत्सरे दद्यात् सौवर्णं दीपकं ततः ॥ ३ ॥ रुग्णा सा स्त्री
 भवेद्भर्तृनिष्ठा पुत्रवती तथा । सपत्नीनामपि तथा दीपवज्ज्वलते
 शुभे ॥ ४ ॥ या शोषभोगी नित्यं नैव च स्यादरुन्तुदा । न च
 स्याद्यशना सौम्ये नित्यं ज्ञपतिदेवता ॥ ५ ॥ शौचान्विता च
 सततं न च रुक्ताभिभाषिणी । स्वश्रृंशुरगोर्नित्यं शुश्रूषाभिरता
 सती ॥ ६ ॥ किं तस्या व्रतकैः कार्यं किं वा स्यादुपवासकैः ।
 या भर्तृदेवता नित्यं सत्यधर्मगुणान्विता ॥ ७ ॥ विधवा स्त्री तु
 या हि स्यात् दैवयोगात् सती सति । तस्याः वक्ष्यामि यो धर्मः
 पुरोणोक्तः सुमध्यमे ॥ ८ ॥ पतिं संकल्पयित्वा सा चित्रस्थं वाऽथ

सालभर पूर्ण होनेपर सुवर्णका वृत्त देय और उसके साथमें
 ब्राह्मणको दन्तिणा देय तो रुञ्जे वन्धुवाली होती है ॥२॥ जो
 स्त्री श्रेष्ठ करञ्जके वृत्तपर सर्वदा दीपक धरती है वह सालभर
 पूर्ण होने सुवर्णका दीपक देय ॥ ३ ॥ हे शुभे ! वह स्त्री अगनी
 कान्तिसे स्वागीकी प्यारी और पुत्रवती होती है सौतोंके ऊपर
 अधिष्ठित रहती है और दीपककी समान प्रज्वलित रहती है ४
 जो स्त्री पतिसे वचे हुए अन्नका ही सर्वदा भोजन करती है
 और किसीके गर्भस्थानको पीडित नहीं करती है तथा बुधके
 दिन दो बार भोजन नहीं करती है और सर्वदा पतिके देवता
 मानती है सर्वदा पवित्र रहती है और रुखा भाषण नहीं करती
 है और सर्वदा सास स्वसुरकी सेवामें नियुक्त रहती है ॥६॥
 ऐसी स्वागीको देवता माननेवाली सत्व धमे और गुणोंसे युक्त
 स्त्रीको व्रत और उपवाससे क्या काम ? ॥ ७ ॥ हे सुमध्यमे
 सती ! जो स्त्री सती होने पर भी प्रारब्धवश विधवा होजाय तो
 उसके लिये पुराणोंमें कहे हुए जो धर्म कहे हैं उनको कहता हूँ =

मृन्मयम् । तस्य पूजां सदा कुर्यात् सतां धर्मगनुस्मरन् ॥ ६ ॥
 तत एवाभ्यनुज्ञाता नित्यं याचेत सुव्रता । व्रतके चोपवासे च
 भोजने च विशेषतः ॥ १० ॥ भर्तृलोकान् व्रजत्येव न चेद्ब्रह्मचरिते
 पतिम् । शाण्डिलीसूर्गवद्भाति सततं पतिदेवता ॥ ११ ॥ अथ
 मभृति सर्वेषां देवानां चैव योपितः । द्रक्ष्यन्ति पुण्यकविधिं
 पुराणो यः सनातनः ॥ १२ ॥ मुनिश्च नारदः कृत्स्नं पौराणं
 ज्ञास्यते विधिम् । उपवासस्य धर्मात्मा व्रतकानां तथैव च १३
 अदितिस्तपसेन्द्राणी त्वं च सोमसुते वरे । प्रवर्तने पुण्यकानां व्रत-
 कानां च सर्वदा १४ कीर्तनीयाः सतीनां हि भविष्यथ गुणान्विताः ।
 उपवासव्रतविधिं यथावदिह कृत्स्नशः ॥ १५ ॥ प्रादुर्भावेपु सर्वेषु
 भार्या विष्णोर्महात्मनः । ज्ञास्यन्ति पुण्यकविधिं नित्यमेव सना-
 तनम् ॥ १६ ॥ सविशेषं च धर्माणां स्त्री धर्मेषु प्रशस्यते । पति-
 वह स्त्री सज्जनोके धर्मका स्मरण करके अपने पतिकी मट्टीकी
 प्रतिमा बनाकर वा चित्रमें प्रतिमा बनाकर उसकी सर्वदा पूजा
 करे ॥ ६ ॥ तदनन्तर वह सुव्रता स्त्री व्रत उपवास और भोजनमें
 उससे ही याचना करे ॥ १० ॥ जो अपने पतिका उल्लंघन नहीं
 करती है वह स्त्री पतिके लोकोंको पाती है तथा सर्वदा पतिको
 देवता माननेवाली स्त्री शाण्डिलीकी समान सूर्गसी प्रकाशित
 रहती है ॥ ११ ॥ इस पुराणोक्त सनातन पुण्यकविधिके आजसे
 सब देवताओंकी सब स्त्रियें देखेंगी अर्थात् करेंगी ॥ १२ ॥
 धर्मात्मा नारदमुनि इस प्राचीन उपवासकी विधिके और सब
 व्रतोंकी विधिके भी जान जावेंगे ॥ १३ ॥ जब इस पुण्यक
 व्रतका अनुष्ठान होगा तब हे सोमपुत्री ! तब तब अदिति
 इन्द्राणी और तुम गुणवतीका सतियोंमें नाम लिया जाया
 करेगा महात्मा विष्णुकी भार्याएँ उनके प्रत्येक अवतारमें इस
 सनातनपुण्यक विधिके और उपवासव्रतकी विधिके पूर्ण

भक्तिरदुष्टत्वमवाग्दुष्टत्वमेव च ॥ १७ ॥ नारद उवाच । एव-
मुक्तास्तु ताः साध्व्यो महादेव्या तपोधनाः । जग्मुर्हृष्टा महादेवीं
प्रणिपत्य हरिमियाम् ॥ १८ ॥ अदितिर्व्रतकं चक्रे शृणु यद्धर्म-
चारिणी । उमाव्रतविधिः सर्वः पूर्वोद्विष्टस्तथा कृतः ॥ १९ ॥
पारिजाते निवध्याथ मग दत्तस्तु कश्यपः । अदितिर्व्रतकं नाम
तद्व्रतं सत्यभाग्या ॥ २० ॥ तदेव व्रतकं दत्तं सावित्र्या धर्म-
नित्यया । तैरेव युक्तैः संयुक्तमिदं त्वभ्यधिकं कृतम् ॥ २१ ॥
सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते स्थाने स्थाने तथैव च । पूजनं वा नम-
स्कारं जपश्च द्विगुणः स्मृतः ॥ २२ ॥ सावित्री व्रतकं कृत्वा
तथादित्या व्रतं सती । भर्तृकुलं पितृकुलं आत्मानं चैव तार-
येत् ॥ २३ ॥ इन्द्राखी व्रतकं चक्रे तदेवौमं यथा विधिः । रक्त-

रीतिसे जाना करेंगी ॥ १४-१६ ॥ स्त्रीधर्मोंमें पत्नीकी भक्ति,
दुष्ट न होना और खोटी बाणीका न बोलना विशेष प्रशंसाके
योग्य माना जाता है १७ नारदजीने कहा, कि-उन तपोधन
साध्वी महादेवियोंसे जब इसप्रकार कहा, तब वे देवियों शिवजीकी
प्रिया महादेवीके प्रणाम कर मसन्न होती हुई चली गई १८
तब धर्मचारिणी अदितिने उस व्रतको किया था उसने जिस
प्रकार उपदेश पाया था उसी प्रकार उमाव्रतकी सब विधिकी
भी १९ उसने कश्यपजीको पारिजातसे बंधकर मुझे दे दिया
उसी अदितिर्व्रतको इस सत्यभामाने (दिया) किया है २०
धर्मनित्य सावित्रीने भी इसी व्रतको किया था उसने इन सब
साधनोंके साथ इमव्रतको और भी अधिकरीतिसे किया २१
सन्ध्याको समय आने पर स्थान २ पर पूजन और नमस्कार
करना चाहिये और इसमें दुगना जप करना कहा है ॥ २२ ॥
सती स्त्री सावित्रीके और अदितिके व्रतको कर स्वामीके और
पिताके कुलको और अपने आपको भी तार देती है ॥ २३ ॥

गन्धधिक वासो भोजनं चैव साभिषम् ॥ २४ ॥ चतुर्थे दिवसे
 वापि पुण्यकार्यं विधिं पुनः । अहोरात्रोपवासश्च देयं कुम्भशतं
 तथा ॥ २५ ॥ गंगया व्रतकं दत्तं तदेवौमं यशस्कृति । स्नान
 गन्धधिकं तत्र मत्स्यूपे स्यान्मनोजले ॥ २६ ॥ अस्मिन् वा जले
 माघशुक्लपक्षे हरिणिये । एतद्गंगाव्रतं नाम सार्वकामप्रदं स्मृतम् ।
 सप्त सप्त च सप्ताथ कुलानि हरिवन्लभे स्त्री तारगति धर्मज्ञा
 गङ्गाव्रतकचारिणी ॥ २७ ॥ देयं कुम्भसहस्रं तु गङ्गाया व्रतके
 शुभे । तारण्य पारण्यं चैव तद्भूत सार्वकामिकम् ॥ २८ ॥ यग-
 भार्या चकाराथ व्रतं यागरथ शुभम् । हेमन्ते तत्तु कर्तव्यमाकाशे
 हरिवन्लभे ॥ २९ ॥ इमानि चैव वाक्यानि ब्रूयादाकाशमास्थिता ।
 स्नात्वा शुचिं समाचारा नमस्कृत्य पतिं शुभे ॥ ३० ॥ चरा-

इन्द्राणीने इस उमाव्रतको विधिके अनुसार क्रिया था रक्त वस्त्र
 और आभिष भोजन (दिया था) ॥ २४ ॥ पुण्यक विधिमें चौथे
 दिन फिर दिन और रातका उपवास करे तथा दूध घड़ोंका दान
 देय २५ हे यशस्विनी ! इस उमाव्रतको ही गंगाजीने बताया है इस
 व्रतमें प्रातःकाल गंगाजीमें स्नान करना अधिक है २६ हे हरि-
 पिये ! गङ्गाजलमें वा दूसरे जलमें माघ मासके शुक्ल पक्षमें स्नान
 करना गङ्गाव्रत नामक व्रत है और यह सब कामोंको देनेवाला
 कहा है ॥ २७ ॥ गङ्गाव्रत करने वाली धर्मज्ञ स्त्री हे हरिवन्लभे !
 इक्ष्मीस कुलोंको पवित्र करती है ॥ २८ ॥ हे शुभे ! गङ्गाके व्रतमें
 महस्र घड़ोंका दान देना चाहिये यह सार्वकामिक व्रत दुःखोंसे
 तारनेवाला और मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला है ॥ २९ ॥ हे हरि-
 वन्लभे ! यमराजकी स्त्रीने यागरथ नामक शुभव्रतको आकाशमें
 अर्थात् खुले हुए स्थानमें क्रिया था इस व्रतसे हेमन्त ऋतुमें
 करना चाहिये ॥ ३० ॥ हे शुभे ! पवित्र आचार वाली स्त्री अपने
 पतिको प्रणाम कर खुले हुए स्थानमें बैठ कर इन शर्तोंको

महिं यामरथं हिमं पृष्ठे न धारये । पतिव्रता जीवपुत्रा भवेयं च
 पुरोधिका ॥ ३२ ॥ सपत्नीरभितिष्ठेयं पश्येयं चैव मा यमम् ।
 सभर्तृपुत्रा जीवेयं निरं च स्वयमेव च ॥ ३३ ॥ पतिलोकं च गच्छेयं
 भवेयं नन्दिनी तथा । सुचैलामृष्टहस्ता च स्वजनेष्टा गुणान्विता
 एवं कृत्वा तपो विपं मधुना स्वस्ति वाचयेत् । तिलैरपि तथा
 कृष्णैः पापसेन तु भोजयेत् ॥ ३४ ॥ एवं व्रतानि देवीभिः
 कृतान्पाररक्षिणि । महादेव्या पुरोक्तानि रुद्रगत्या हरिमिये ॥ ३५ ॥
 अहं व्रीषि तपसा मदीयेन सपत्निताः । सर्वा द्रक्ष्यथ गुणयानि
 व्रतकानि तत्रैव च ॥ ३७ ॥ पौराणान्युपया देव्या यानि दृष्टानि
 वै पुरा । रुद्रगणगुणयुक्तानि पावनानि शुभानि च ॥ ३८ ॥
 वैशम्पायन उवाच । रुक्मिणी व्रतकं चक्रे दृष्ट्वा व्रतरुविस्तरम् ।
 उपया वरदानेन दृष्ट्वा दिव्येन चक्षुषा ॥ ३९ ॥ उमाव्रतेषु सर्वेषु

कहे ॥ ३१ ॥ मैं यामरथ व्रतको करूँ, पीठ पर हिमको धारण न
 करूँ, मैं पतिव्रता, जीवित पुत्रों वाली और अग्रणीया होऊँ ॥ ३२ ॥
 मैं सपत्नीरोंके ऊपर अभिष्टित रहूँ, यमका दर्शन न करूँ और मैं
 अपने स्वामी और पुत्रोंके साथ बहुत समय तक सुखपूर्वक
 जीवित रहूँ ॥ ३३ ॥ मैं पतिलोकको प्राप्त होऊँ, मेरे वस्त्र अच्छे
 रहें तथा मैं नन्दिनी (प्रिया) रहूँ, मेरा हाथ खुला रहे और मैं
 इष्टजनोंके गुण युक्त रहूँ ॥ ३४ ॥ इस प्रकार कहके ब्राह्मणसे
 स्वस्तिवाचन करावे और काले तिल मधु और दुग्धसे ब्राह्मण
 को भोजन कराये ॥ ३५ ॥ हे अग्रवरिणि हरिमिये ! इस प्रकार
 रुद्रकी पत्नी महादेवीके कहे हुए व्रत देवियोंने किये हैं ॥ ३६ ॥
 मैं कहना हूँ कि-तुम सब मेरे तप (के प्रभाव) से युक्त होकर
 उमादेवीके प्राचीन कालमें (देखे) करे हुए कल्याणयुक्त, पावन
 शुभ व्रतोंको करोगी ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ वैशम्पायनजी कहा; कि
 उमाके वरदानके कारण रुक्मिणीने दिव्य दृष्टिसे व्रतविस्तरको

वृषदानं तथाधिकम् । रत्नमालामदानं च तथान्नं सार्वकामि-
कम् ॥४०॥, तथा जाम्बवती चक्रे पुरोगा व्रतकं यथा । ददा-
वभ्यधिकं सा तु रत्नवृत्तं मनोहरम् ॥ ४१ ॥ सत्या ददौ तथै-
वाथ पुरोगाव्रतकं यथा । पीतमभ्यधिकं वासस्तया दत्तश्रुपा-
व्रते ॥४२॥ रोहिण्याथ च फाल्गुन्या मघया च पुरातने । व्रतानि
खलु दत्तानि बहूनि कुलवर्धने ॥४३॥ ददौ शतभिषा चैव व्रतकं
पुण्यलक्षणम् । येन नक्षत्रमुख्यत्वं जगाम कुरुनन्दन ॥ ४४ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि पारिजातहरण्ये
उमाव्रतकथनसमाप्तिः पारिजातहरणकथनसमाप्तिर्नाम
एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥

जनमेजय व्रत्राच । वैशम्पायन धर्मज्ञ व्यासशिष्य तपोधन ।
पारिजातस्य हरण्ये पट्पुरं परिकीर्तितम् ॥ १ ॥ निवासोऽसुर-
मुख्योनां दारुणानां तपोधन । तेषां बधं मुनिश्रेष्ठ कीर्तयस्वां-

देख कर व्रत किया ३६ उमाके सब व्रतोंमें वृषभका दान रत्नों
की मालाका दान और सार्वकामिक अन्न (का दान) अधिक
अच्छा समझा जाता है ४० जाम्बवतीने उमाव्रतको करके मनो-
हर रत्नवृत्त अधिक दिया था ४१ पहिले सत्याने भी इसी प्रकार
उमाव्रत किया था और उसने उमाव्रतमें पीला वस्त्र अधिक दिया
था ४२ हे कुलवर्धने ! माचीन समयमें रोहिणीने फाल्गुनीने
मघाने बहुतसे व्रत किये थे ४३ शतभिषाने भी इस पुण्यलक्षण
व्रतको किया था, इसी लिये हे कुरुनन्दन ! वह नक्षत्रोंमें मुख्य
होगया है ४४ इत्यासीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८१ ॥

जनमेजयने कहा कि-हे तपोधन व्यासजीके शिष्य धर्मज्ञ
वैशम्पायनजी! आपने पारिजातके हरणके समय पट् पुरका वर्णन
किया था ? हे, तपोधन ! वह दारुण मुख्य २ असुरोंका
निवासस्थान है, हे मुनिश्रेष्ठ ! आप उनका और अंधकका

धकस्य च ॥२॥ वैशम्पायन उवाच । त्रिपुरे निहते वीरे रुद्रेण
 क्रिट्कर्मणा । तत्र प्रधाना बहवो बभूवुरसुरोत्तमाः ॥ ३ ॥ शरा-
 ग्निना न दग्धास्ते रुद्रेण त्रिपुरालयाः । पट्टिः शतसहस्राणि
 न न्यूनान्पधिकानि च ॥ ४ ॥ ते ज्ञातिवधसंतप्तारचक्रुर्वीराः
 पुरा तपः । जम्बूमार्गे सतामिष्टे महर्षिगणसेविते ॥५॥ आदित्य-
 भिसुखा वीराः सहस्राणां शतं समाः । वायुभक्ता नृपश्रेष्ठ स्तुवन्तः
 पद्मसम्बन्धम् ॥६॥ ते पाण्डुम्बरं राजन् गण एकः समाश्रितः । वृत्तं
 तत्रावसन् वीरास्ते कुर्वन्तो महत्तपः ७ कपित्थवृत्तमाश्रित्य केचि-
 त्तत्रोपिताः पुरा । सृगालवाटीस्त्वपरे चेरुखां तथा तपः ॥८॥
 वटमूले तथा चेरुस्त्वपः कौरवनन्दन । अभीषन्तो परं ब्रह्म बटं
 मत्वासुरास्मजाः ६ तेषां तुष्टः मजाकर्ता नरदेव पितामहः । वरं
 दातुं सुरश्रेष्ठः माप्तौ धर्मभृतां वरः ॥ १० ॥ वरं वरयतेत्युक्तास्ते

वध वर्णन करिये २ वैशम्पायनजीने कहा, 'कि-सरलतासे कर्म
 करनेवाले रुद्रने जब त्रिपुरका नाश कर डाला तब भी बहुतसे
 प्रधान २ श्रेष्ठ असुर वच गए थे ३ रुद्रने जिन त्रिपुरनिवासियों
 को बाणकी अग्निसे नहीं जलाया था वे छः लाख थे, न कम
 थे न अधिक थे ४ उन वीरोंने जाति वालोंके वधसे सन्तप्त होकर
 महर्षियोंसे सेवित जम्बूमार्गमें तप किया था ५ वे वीर आदित्यकी
 ओर मुख करके वायुभक्षण करते हुए पद्मयोनि ब्रह्माजीकी एक
 लाख वर्ष तक स्तुति करते रहे ॥६॥ उनमेंका एकटोला गूलड़के
 पेड़के नीचे बैठ गया उन्होंने उस वृत्तके नीचे बैठ कर बड़ा भारी
 तप किया ॥ ७ ॥ कुछ व्यक्ति कैथके वृत्तका और कुछ सृगाल-
 वाटी (वृत्त) का आश्रय लेकर उग्र तप करने लगे ॥ ८ ॥ हे
 कौरवनन्दन ! वे असुरपुत्र वटमूलका आश्रय लेकर भी पर-
 ब्रह्मका अध्ययन करते हुए तप करने लगे ॥ ९ ॥ हे नरदेव ! तब
 उनके ऊपर मजाके रचने वाले ब्रह्माजी प्रसन्न हो गए और

राजन् पद्मयोनिना । नेपुस्तद्वरदानं तु द्विपतः त्र्यम्बक विभुम् ११
 इच्छन्तोऽपचितिं गन्तुं ज्ञानिनां कुरुनन्दन । तानुवाच ततो ब्रह्मा
 सर्वज्ञः कुरुनन्दन ॥ १२ ॥ विश्वस्य जगतः कर्तुः संहर्तुश्च
 महात्मनः । कः शक्तोऽपचितिं गन्तुं गास्तु वोऽत्र वृथा श्रमः १३
 अनादिमध्यनिधनः सोमो देवो महेश्वरः । तमस्य सुखं स्वर्गं
 वस्तुमिच्छन्ति ये सुराः ॥ १४ ॥ तेनेपुस्तत्र केचित्तु दुरात्मानो
 महासुराः । अथेपुरपरे राजन्नसुरा भव्यभावनाः ॥ १५ ॥ नेपुर्गे
 सुदुरात्मानस्तानुवाच पितामहः । वरयध्वं वर वीरा रुद्रक्रोध-
 मृतेऽसुराः ॥ १६ ॥ त ऊचुः सर्वदेवानां अयव्याः स्यामहे विभो ।
 पुराणि पट् च नो देव भवत्त्वं तर्महीतले ॥ १७ ॥ सर्वभागसमृद्ध्यर्थं

वह श्रेष्ठ तथा देवताओंमें उत्तम ब्रह्माजी उनसे वर देनेको
 प्रागप ॥ १० ॥ हे राजन् ! उनसे पद्मयोनि ब्रह्माजीने वरदान
 माँगनेके लिये कहा, परन्तु वह तो त्र्यम्बक विभुसे द्वेष करते थे,
 अतः उन्होंने वरदान लेना नहीं चाहा ११ हे कुरुनन्दन ! वे रुद्र
 से द्वेष कर अपनी जाति बालोसे अनृण होना चाहते थे, हे कुरु
 नन्दन ! तब उनसे सर्वज्ञ ब्रह्माजीने कहा कि— ॥ १२ ॥ सम्पूर्ण
 जगत्को रचने वाले तथा आखिल जगत्का संहार करने वाले
 महात्मा रुद्रसे कौन अपचिति (बदला) ले सकता है, अतः तुम
 इस विषयमें व्यर्थ ही परिश्रम न करो ॥ १३ ॥ उमा सहित महे-
 श्वर देव आदि (जन्म) मध्य और निधन (मृत्यु) रहित है, जो
 देवता हैं वे भी उनकी ही गर्जना कर स्वर्गमें रहना चाहते हैं १४
 तब भी तहाँ के कुछ दुरात्मा असुरोंने वर लेना न चाहा, और
 हे राजन् ! कुछ रुद्रयाणका चिन्तवन करने वाले असुरोंने वर
 लेना चाहा १५ जो दुरात्मा वर लेना नहीं चाहते थे, उनसे
 पितामहने कहा, कि-हे वीरों ! तुम रुद्र पर क्रोध करनेके
 अतिरिक्त वर माँगलो १६ तब उन्होंने कहा, कि-हे विभो !

पट्पुर चास्तु नः प्रभो । वयं च पट्पुरं गत्वा वसेम च सुखं
 विभो ॥ १८ ॥ रुद्रादुग्रं भयं न स्याद्येन नो ज्ञातयो हताः ।
 निहतं त्रिपुरं दृष्ट्वा भीताः स्म तपसां निधे ॥ १९ ॥ पितामह
 उवाच । असुरा भवतावभ्या देवानां शक्रस्य च । न वा-
 धिष्यथ चेद्विमान् सत्पथस्थान् सतां प्रियान् ॥२०॥ विभोपघातं
 मोहाच्चेत् करिष्यथ कथञ्चन । नाशं यास्यथ विगा हि जगतः
 परमा गतिः ॥२१॥ नारायणाद्विभेतव्यं कुर्वद्भिर्ब्राह्मणास्तिम् ।
 सर्वभूतेषु भगवान् हितं धत्ते जनार्दनः ॥ २२ ॥ ते गता असुरा
 राजन् ब्रह्मणा ये विसर्जिताः । येऽपि भक्ता महादेवमसुरा
 धर्मचारिणः ॥ २३ ॥ स्वयं हि दर्शनं तेषां ददौ त्रिपुरनाशनः
 श्वेतं वृषभमारुह्य सोमः सप्रवरः प्रभुः । उवाचेदं च भगवान-

हम सब देवाओंसे अवभ्य हों और हमारे छः पुर (पट्पुर)
 पृथ्वीके भीतर हों १७ हे प्रभो ! हमारा पट्पुर सब कामनाओं
 से समृद्ध है और हे विभो ! हम पट्पुरमें जाकर सुखपूर्वक
 निवास करें १८ हमें शंकरसे उग्र भय न मिले, कि जिन्होंने हमारी
 जाति वालोंको मार डाला है हे तपोनिधे ! हम त्रिपुरको नष्ट
 हुआ देवशर डर रहे हैं १९ पितामहने कहा, कि-हे असुरों !
 यदि तुम सन्नगर्ममें स्थित सज्जनोके पिय ब्राह्मणोंको पीड़ा
 नहीं दोगे तो तुम शंकरसे और देवताओंसे भी अवभ्य रहोगे २०
 यदि तुम मोहाश कभी ब्राह्मणोंको पीडा दोगे, तो नष्ट हो जावोगे
 क्योंकि-ब्राह्मण जगत्की परमगति हैं २१ ब्राह्मणोंका अहित
 करते 'समय तुम नारायणसे डरते रहना, क्योंकि-भगवान्
 जनार्दन सब प्राणियोंका हित चाहते रहते हैं २२ ब्रह्माजीके
 विसर्जा करने पर वे असुर चले गए और जो धर्मचारी असुर
 महादेवके भक्त थे २३ उनको त्रिपुरका नाश करनेवाले प्रभु
 महादेवने उगाके साथ श्वेत गौल पर बैठकर दर्शन दिये, उनके

सुरान् स सतां गतिः ॥ २४ ॥ वैरमुन्सृज्य दम्भं च हिंसां
 चासुरसत्तमाः । मापेव चाश्रितास्तस्माद्दूरं-साधु ददाणि वः २५
 यैर्दीक्षिताः स्थ मुनिभिः सत्क्रियापरमैर्द्विजैः । सह तैर्गम्यतां
 स्वर्गः प्रीतोऽहं वः सुरुर्मणा ॥ २६ ॥ इह ये चैव वत्स्यन्ति
 तापसा ब्रह्मवादिनः । अपि कापित्यक्ता वृत्ते तेषां लोको यथा मम
 इह मासान्तपक्षान्तौ यः करिष्यति मानवः । वानपस्थे च विधिना
 पूजयन्नां तपोधन ॥ २७ ॥ वर्षाणां स सहस्रं तु तपसां प्राप्स्यते
 फलम् । कृत्वा त्रिरात्रं विधिवन्लप्स्यते चेप्सितां गतिम् ॥ २८ ॥
 अर्कद्वीपे निवसतो द्विगुणं तद्भविष्यति । न विदेशे च भद्रं वो
 वरमेतद्दाम्यहम् ॥ ३० ॥ श्वेतवाहननामानं यश्च मां पूज-
 पिष्यति । सर्वतो भयवित्तोपि गतिं स मम यास्यति ॥ ३१ ॥

साथ गण भी थे और उन सज्जनोकी गति भगवान् शिवने
 यह वचन भी कहा, कि-२४ हे असुरसत्तमों ! तुमने वैर हिंसा
 और दंभको छोड़, मेरा ही आश्रय लिया है इस लिये मैं तुम्हें
 वर देता हूँ, कि-२५ जिन सत्क्रियामें परायण रहने वाले
 ब्राह्मण मुनिगोंने आपको दीक्षित किया है, उनके साथ तुम्हे
 स्वर्ग मिलेगा, मैं तुम्हारे कर्मसे प्रसन्न हूँ २६ जो ब्रह्मवादी
 तपस्वी यहाँ वृत्तके नीचे वसेमे उन कापित्यक्तोंको मेरी समान
 ही लोक मिलेंगे २७ हे तपोधन ! जो मनुष्य वानप्रस्थ विधिसे
 यहाँ पर वानपस्थ विधिसे अपात्रस्या और पूर्णिमाके दिन
 रहेगा २८ वह मनुष्य सहस्र वर्षोंके तपोंके फलको पावेगा और
 तीन राततक विधानके अनुसार करनेसे ईप्सित गतिको पावेगा
 अर्कद्वीपमें निवास करने पर दुगना फल होगा, परन्तु विदेशमें
 तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, यह मैं सत्य कहता हूँ ३० जो
 शुक श्वेतवाहन नाग वालेकी पूजा करेगा उसका चित्त सब ओर
 से भयमें पड़ा होगा तब भी मेरी गतिको पावेगा ३१ औदुम्बर

वसुदेवस्य सहाध्यावी द्विजोत्तमः । उपाध्यायश्च कौरव्य क्षीर-
 होता महात्मनः ॥ ४ ॥ वसुदेवस्तत्र यातो देवक्या सहितः
 प्रभो । यजमानं पट्पुरस्थं यथा शको वृहस्पतिम् ॥ ५ ॥ तत्संत्रं
 ब्रह्मदत्तस्य बहन्नं बहुदक्षिणम् । उपासन्नि मुनिश्रेष्ठा महात्मानो
 दृढव्रताः ॥ ६ ॥ व्यःसोऽहं याज्ञवल्क्यश्च सुमन्तुर्जैमिनिस्तथा ।
 धृतिमान् जाबलिश्चैव देवलाद्याश्च भारत ७ ऋद्ध्याऽनुरूपया
 युक्तं वसुदेवस्य धीमतः । यत्रेप्सितान्ददौ कामान् देवकी धर्म-
 चारिणी ॥ ८ ॥ वासुदेवभावेन जगत्स्रष्टुर्महीतले तस्मिन् सत्रे
 वर्तमाने दैत्याः पट्पुरवासिनः ॥ ९ ॥ निकुंभाद्याः समागम्य
 तमूर्चुर्वरदर्पिताः । कार्यतां यज्ञभागो नः सोमं पारयामहे वयम् ।
 कत्याश्च ब्रह्मदत्तो नो यजमानः प्रयच्छतु ॥ १० ॥ बह्वयः संत्यस्य

दीक्षा ली थी ३ वह द्विजोत्तम वसुदेवके मित्र और सहपाठी थे
 और हे कौरव्य ! वह महात्मा वसुदेवके उपाध्याय और अध्वर्यु-
 भी थे ४ हे प्रभो ! जैसे इन्द्र वृहस्पतिके पास जाते हैं इसी
 प्रकार पट्पुरमें स्थित पूजा करनेवाले ब्रह्मदत्तके पास वसुदेव
 देवकीको साथ लेकर गये थे ५ श्रेष्ठ २ मुनि और दृढव्रत धारी
 महात्मा बहुतसे अन्न और दक्षिणावाले यज्ञकी उपासना कर-
 रहे थे ६ हे भरतवंशी राजन् ! बुद्धिमान् वसुदेवकी सम्पतिके
 अनुरूप उस यज्ञकी व्यासजी में याज्ञवल्क्य सुमन्तु जैमिनि
 धैर्यधारी जाबलि और देवल आदि भी उपासना कर रहे थे
 उस यज्ञमें धर्मचारिणी देवकीने अभिलषित मनोरथ पूर्ण किये
 थे ७-८ जगत्के रचयिता वासुदेवके प्रभावसे वह यज्ञ पृथ्वीतल
 में होरहा था उस समय वरदानसे गर्वमें भरे हुए पट्पुरनिवासी
 निकुंभ आदि दैत्योंने तहाँ आकर कहा, कि-यज्ञमें हमारा भी
 भाग निकालो, हम सोमपान करेंगे । १०

कन्यारत्न रूपवन्त्यो महात्मनः । आहूय ताः प्रदातव्याः सर्वथैव हि
 नः श्रुतम् ॥ ११ ॥ रत्नानि च ब्रह्मदत्तो विशष्टानि ददातु नः ।
 अन्यथा तु न यष्टव्यं वयमाज्ञापयामहे ॥ १२ ॥ एतच्छ्रुत्वा ब्रह्म-
 दत्तस्तानुवाच महासुरान् । यज्ञभागो न विहितः पुराणेषु सुर-
 सत्तमाः ॥ १३ ॥ कथं सत्रे सोपमानं शक्यं दातुं मया हि वः ।
 पृच्छते ह मुनिश्रेष्ठान् वेदभाष्यार्थकोविदान् ॥ १४ ॥ कन्या हि
 मम या देवास्ताश्च संकल्पिता मया । अन्तर्वेद्यां प्रदातव्याः सह-
 शानामसंशयम् ॥ १५ ॥ रत्नानि तु प्रयच्छामि सान्त्वेनाहं
 विनिन्दयताम् । बलान्नैव प्रदास्यामि देवकीपुत्रमाश्रितः ॥ १६ ॥
 निकुम्भाद्यास्तु रूपिताः पापाः पट्पुरवासिनः । यज्ञवाटं बिलु-
 लुपुर्जद्भुः कन्याश्च तास्तथा ॥ १७ ॥ तद् दृष्ट्वा सम्प्रवृत्ता तु दध्या-

महात्मा ब्रह्मदत्तके बहुतसी रूपवती कन्याएँ है, उन्हें हमें बुला कर
 हमारे अर्पण कर दे ॥ ११ ॥ और ब्रह्मदत्त हमें श्रेष्ठ रत्न भी
 देय, अन्यथा वह यज्ञ न करे, ऐसी हम आज्ञा देते हैं १२ इस
 बातको सुन कर ब्रह्मदत्तने उन वड़े २ असुरोंसे कहा; कि-हे
 श्रेष्ठ असुरों ! पुराण (श्रुति) में "यज्ञमें तुम्हारा भाग निकालना
 नहीं लिखा" है ॥ १३ ॥ इस लिये मैं तुम्हें यज्ञमें सोप-
 पान कैसे करा सकता हूँ, इस बातको मैंने वेदके भाष्यका अर्थ
 करनेमें चतुर पुरुषोंसे बूझ लिया है ॥ १४ ॥ और मैंने अपनी
 दान करने योग्य कन्याओंका संकल्प कर रक्खा है, मैं उनको
 वेदोंके भीतर अपने समान व्यक्तिगोंको दूँगा ॥ १५ ॥ और मैं
 रत्नोंको भी सान्त्वपूर्वक तो देदूँगा, बलपूर्वक नहीं दूँगा, क्योंकि-
 मुझै देवकीपुत्रका भरोसा है ॥ १६ ॥ (इस बातको सुन कर)
 पट्पुरमें रहने वाले निकुंभ आदि पापी दैत्य यज्ञवाटको नष्ट भ्रष्ट
 कर कन्याओंको हरना चाहने लगे ॥ १७ ॥ इस दुर्घटनाको देख
 कर वसुदेवजीने महात्मा वासुदेव बलदेव और प्रद्युम्नका स्मरण

वानकदुन्दुभिः । वासुदेवं महात्मानं बलभद्रं गदं तथा ॥ १८ ॥
विदितायैस्वतः कृष्णः प्रद्युम्नमिदमब्रवीत् । गच्छ कन्यापरि-
घ्राणं कुरु पुत्रास्तु मागया ॥ १९ ॥ यावद्यादवसन्त्येन पट्पुरं
वाम्गहं पभो । स ययौ पट्पुर वीरः पितुराज्ञाकरस्तदा ॥ २० ॥
निमेषाग्नरमात्रेण गत्वा कामो महाबलः । कन्यास्ता मायया
धीमानपजहे महाबलः ॥ २१ ॥ मायापथीश्च कृत्वान्या न्यरत-
वान् रुक्मिणीसूतः । मा भैरिति च धर्मात्मा देवकं ह्युक्तनासदा ।
मायापथीस्तयो हृत्वा सुता दस्य दुरासदाः । पट्पुरं विविशु-
दैत्याः परितुष्टा नराधिप ॥ २३ ॥ कर्म चासार्थते तत्र विधि-
दृष्टेन कर्मणा । यद्विशिष्टं बहुगुणं तदधूच्च नराधिप ॥ २४ ॥
एतस्मिन्नन्तरे माया राजानस्तत्र भारत । सने निगन्त्रिताः पूर्वं
वशादक्षेण धीमता ॥ २५ ॥ जरासन्धो दन्तवक्रः शिशुपाल-

किया ॥ १८ ॥ उस समय श्रीकृष्णने उस बातको जान कर
प्रद्युम्नसे कहा; कि हे पुत्र ! तूग शीघ्र ही जाकर मायासे कन्याओं
की रक्षा करो ॥ १९ ॥ हे मभो ! तब तक मैं भी पट्पुरमें पहुँच
जाऊँगा तब वह पिताकी आज्ञा पालने वाला प्रद्युम्न पट्पुरको
बला गया ॥ २० ॥ महाबला प्रद्युम्न बलरू मारने मात्रके समय
में तहाँ पहुँच गया, फिर उस महाबली प्रद्युम्नने माया करके
जला भरमें ही उन कन्याओंको हर लिया ॥ २१ ॥ और दूसरी
मायापथी कन्याएँ रच कर तहाँ धर दीं फिर धर्मात्मा रुक्मिणी-
पूजने देवतासे कहा, कि-आा हरिये नहीं ॥ २२ ॥ हे राजन् !
वे दुरासद दैत्य उन मायापथी कन्याओंको लेकर ममन्त्र होने
दुष्ट पट्पुरको चले गए ॥ २३ ॥ हे राजन् ! तहाँ (ब्रह्मदत्तके
भ्राता भी) शास्त्रानुसार गीतिसे (यज्ञ) कर्म बढ़िया रीतिमें
होने लगा ॥ २४ ॥ इमी समय तहाँ पर बुद्धिमान ब्रह्मदत्तके
द्वारा गणने तिसंत्रिंशत् नरासुर दन्तवक्र शिशुपाल पाण्डव तथा

स्तथैव च । पाण्डवा धार्तराष्ट्राश्च मालवाः सगणास्तथा ॥२६॥
 रुक्मी चैवाद्भृतिश्चैव नीलो वा धर्म एव च । विद्मानुविंदावा-
 वन्तर्गो शल्यः शकुनिरेव च ॥ २७ ॥ राजानश्च परे कीरा महा-
 त्मानो हृदायुधाः । आयासिता नातिदूरे पट्टपुरस्य च भारत २८
 तान् हृष्टा नारदः श्रीमान्वित्तगदनिदिनः । क्षत्रस्य यादवानां च
 भविष्यति समागमः ॥ २९ ॥ अत्र हेतुरहं युद्धे तस्मात्तत् प्रपता-
 म्यहम् । एवं सञ्चिन्तयित्वाऽप्य निकुम्भभवनं गतः ॥ ३० ॥
 पूजितः सं निकुम्भेन दानवीथ तत्रापरे । उपविष्टः स धर्मात्मा
 निकुम्भमिदमब्रवीत् ॥ ३१ ॥ कथं विरोधं यदुभिः कृत्वा स्वस्थै-
 रिहास्यते । यो ब्रह्मदत्तः स हरिः स हि तस्य विभुः सखा ३२
 शतानि पञ्च भार्याणां ब्रह्मदत्तस्य धीमतः । आनीता वसुदेवस्य
 सुतस्य विपकांगया ॥ ३३ ॥ शतद्वयं ब्राह्मणीनां राजन्यानां

धृतराष्ट्रके पुत्र और गणोंसाहित मालव राजे भी तहाँ आ
 पहुँचे ॥ २५ ॥ २६ ॥ रुक्मी आद्भृति नील धर्म, उज्जैनके
 विद और अनुविन्द, शल्य शकुनि तथा और भी बहुतसे हृद
 ब्रतधारी महात्मा क्षत्रिय (आये थे) हे भारत ! उनको पट्टपुर
 के समीप ही ठहरा दिया गया ॥ २७ ॥ २८ ॥ उनको देख कर
 अनिन्दित श्रीमान् नारदजीने विचारा कि-क्षत्रियोंका और
 यादवोंका समागम अब होने वाला है ॥ २९ ॥ परन्तु यहाँ पर
 युद्ध करानेमें युद्ध हेतु बनना चाहिये, इस प्रकार विचार कर वह
 निकुम्भके भवनको चले गए ॥ ३० ॥ तहाँ पर निकुम्भने तथा
 दूसरे दानवोंने भी उनका सत्कार किया, तदनन्तर बैठनेके
 उपरान्त उन्होंने निकुम्भसे यह बात कही, कि-॥ ३१ ॥ तुम
 यादवोंसे विरोध करके यहाँ पर आनन्दसे कैसे बैठे हो, जो
 ब्रह्मदत्त है वही हरि है, क्योंकि ये विभु उनके मित्र है ॥ ३२ ॥
 बुद्धिमान् ब्रह्मदत्तकी पाँचसौ स्त्रियों हैं, उनको वह वसुदेवके

शतं तथा । वीश्यानां शतमेकं च शूद्राणां शतमेव च ॥ ३४ ॥
 ताभिः शुश्रूषितो भीमान् दुर्वासा धर्मवित्तमः । तेन तार्सा वरो
 दत्तो मुनिना पुण्यकर्मणा ॥ ३५ ॥ एकैकभननयो राजन्नेकैका
 दुहितौ तथा । रूपेणानुपमाः सर्वा वरदानेन धीमतः ॥ ३६ ॥
 कन्या भवन्ति तनयास्तस्यासुर पुनः पुनः । सङ्गमे सङ्गमे वीर
 भर्तृभिः शपने सह ॥ ३७ ॥ सर्वपुष्पमयं गन्धं प्रस्रवन्ति वरां-
 गनाः । सर्वदा यौवने न्यस्ताः सर्वाश्चैव पतिव्रताः ॥ ३८ ॥
 सर्वा गुणैरप्सरसां गीतनृत्यगुणोदयम् । जानन्ति सर्वा दैतेष
 वरदानेन धीमतः ॥ ३९ ॥ पुत्राश्च रूपसम्पन्नाः शास्त्रार्थकुश-
 लास्तथा । स्वे स्वे स्थिता वर्णाधर्मे यथावदनुपूर्वशः ॥ ४० ॥
 ताः कन्या भैगमुत्थानां दत्ताः गायेण धीमता । अवशोपं शतं

पुत्रका मिय करनेके लिए लाये थे ॥ ३३ ॥ उनमें दो सौ ब्राह्म-
 णियें हैं, एक सौ क्षत्रियायें हैं, एक सौ वीश्याएँ हैं और सौ
 शूद्राएँ हैं ॥ ३४ ॥ उन्होंने धर्म जानने वालोंमें श्रेष्ठ बुद्धिमान्
 दुर्वासा ऋषिकी सेवाकी थी, तब उन पुण्यकर्म करने वाले
 मुनिने उनको वर दिया था, ॥ ३५ ॥ हे राजन् ! उन
 बुद्धिमान्के वरदानसे उनके एक एक पुत्र और एक एक
 अनुपम रूपवती कन्याएँ हुई हैं ॥ ३६ ॥ हे वीर असुर !
 उसकी कन्याएँ अपने स्वामियोंके साथ मत्पेक संगम करते समय
 रगणीय होजाया करेगी ॥ ३७ ॥ उन श्रेष्ठ स्त्रियोंके शरीरमेंसे
 सब पुष्पोंकी गन्ध निकलती रहती है, वे सर्वदा यौवन वाली और
 पतिव्रता रहेंगी ॥ ३८ ॥ हे दैतेय ! वे सब उन बुद्धिमान्के वर-
 दानके कारण अप्सराओंके गीत नृत्य आदि गुणोंको जानती
 हैं ॥ ३९ ॥ और उनके सब पुत्र भी रूपवान् हैं शास्त्रार्थमें कुशल
 हैं और अपने २ वर्णाधर्ममें क्रमपूर्वक स्थित हैं ॥ ४० ॥ उन
 बुद्धिमान्ने वे कन्याएँ मुख्य भीमवंशिगोंको मायः देदीं हैं एकसौ

त्वेकं गदानीतं किल त्वया ॥ ४१ ॥ तदर्थं यादवान् वीरयोध-
 यिष्णसि सर्वथा । सहायार्थं तु राजानो विप्रन्तां हेतुपूर्वकम् ४२
 ब्रह्मदत्तसुतार्थं च रत्नानि विविधानि च । दीयन्तां भूमिपालानां
 महायार्थं महान्गनाम् ॥ ४३ ॥ आतिथ्यं क्रियतां चैव ये समे
 ष्यन्ति तौ नृपाः । एवमुक्ते तथा चक्रुरसुरास्नेऽतिहृष्टवत् ॥४४॥
 लब्ध्वा पञ्चशतं कन्या रत्नानि निविधानि च । यथाह्येण नरे-
 न्द्रंस्ता विभक्ता भक्तवत्सलाः ॥४५॥ ऋते पाण्डुसुतान् वीरान्
 धारिता नारदेन ते । निमेषान्तरगात्रेण तत्र गत्वा महात्मना ४६
 तुष्टैश्चैरसुरा ह्युक्ता राजन् भूमिपसत्तमैः । सर्वकामसमृद्धार्थैर्भवद्भिः
 स्वगमैः स्वयम् ॥ ४७ ॥ अर्चनां स्म यथान्यायं क्षत्रं किं वः

कन्याएँ वाञ्छी नहीं थीं उनको आप ले आये हैं ४१ हे वीर ! उन
 के लिये आपको यादवोंसे सब प्रकारसे लड़ना पड़ेगा अतः आप
 किसी निमित्तको निकाल कर उन राजाओंको सहायताके लिये
 वरण कर लीजिये ॥ ४२ ॥ ब्रह्मदत्तकी पुत्रियोंके लिये आप
 उन राजाओंकी सहायता कीजिये और सहायता पानेके लिये
 महात्मा राजाओंको अनेक प्रकारके रत्न दीजिये ॥ ४३ ॥ जो
 राजे तहाँ पर आचोंगे उनका अतिथिसत्कार करना चाहिये इस
 प्रकार कहने पर उन असुरोंने प्रसन्न होकर बौसा ही किया ४४।
 उन राजाओंने पाँचसौ कन्या और अनेक प्रकारके रत्न पाकर
 उन भक्तवत्सल कन्याओंको उचित रीतिसे बाँट लिया ४५
 पाण्डुपुत्रोंने उन कन्याओंको ग्रहण नहीं किया था क्योंकि-
 महात्मा नारदजीने निमेष मात्रमें ही तहाँ पहुँच कर उन वीरोंसे
 मना कर दिया था, ४६(यह सब काम निज्जुंमने किया था) फिर
 हे राजन् ! उन राजाओंने प्रसन्न होकर असुरोंसे कहा कि-आप
 आकाशचारी हैं और सब कामनाओंसे समृद्ध हैं तब भी आप
 ने क्षत्रियोंका न्यायानुसार सत्कार किया अतः क्षत्रिय आपको

प्रयच्छतु । क्षत्रं चार्चितपूर्वं हि दिव्यैर्धैरैर्भवद्विधैः ॥ ४८ ॥
 निकुम्भोऽथाब्रवीद्बृष्टः क्षत्रं सुररिपुस्तदा । अनूवर्णयित्वा
 क्षत्रस्य गाहात्म्यं सत्यमेव च ॥ ४९ ॥ युद्धन्तो रिपुभिः सार्धं
 भविष्यन्ति नृपोत्तमाः । साहाय्यं वृत्तमिच्छामो भवद्भिस्तत्र
 सर्वथा ॥ ५० ॥ एवगरित्वति तानूचुः क्षत्रियाः क्षीणकिन्धियाः ।
 पाण्डवेषानृते वीरान् श्रुतार्थान् नारदाद्विभो ॥ ५१ ॥ क्षत्रियाः
 सन्निधिष्ठास्ते युद्धार्थं कुरुनन्दन । पत्न्यस्तु ब्रह्मदत्तस्य यज्ञघातं
 गता अपि ॥ ५२ ॥ कृष्णोपि सेनया सार्धं प्रथमौ पट्पुरं विभुः ।
 महादेवस्य वचनमुद्वहन्मनसा नृप ॥ ५३ ॥ स्थापयित्वा द्वार-
 वत्यामाहुकं पार्थिवं तदा । स तप्य सेनया सार्धं पौराणां हित-
 काम्यया ॥ ५४ ॥ यज्ञघातस्याविदूरे देवो निधिविशे विभुः । देशे

यथा वस्तु दें क्योंकि-आपसे दिव्य वीर पुरुषोंने क्षत्रियोंका प्रथम
 पूजन किया ४७-४८ उस समय देवताओंके शत्रु निकुम्भने प्रसन्न
 हो कर क्षत्रियोंके सघे महात्म्यका वर्णन करते हुए कहा, कि-४९
 हे श्रेष्ठ रागाओं! हम जिस समय शत्रुओंसे युद्ध करेंगे उस समय
 शायद आप उनके साथ हो जाय इस लिये हम आपकी सब
 प्रकारसे सहायता लेना चाहते हैं ५० हे विभो! उस समय सब पाण-
 रहित वीर क्षत्रियोंने उनसे एवमस्तु कहा, केवल वीर पाण्डवोंने
 ही इस बातको स्वीकार नहीं किया क्योंकि-नारदजीसे उन्होंने
 सभ बात सुन रखी थी हे कुरुनन्दन ! (जिस समय) क्षत्रिय युद्ध
 के लिये तयार हो रहे थे और ब्रह्मदत्तकी पत्नियें यज्ञघातमें पहुँच
 चुकी थीं ५१ ५२ हे राजन ! उसी समय विभु श्रीकृष्ण महा-
 देवके वचनको मनमें रख कर अपनी सेनाको साथले पट्पुरको
 चलदिये ५३ वे चलते समय नगर निवासियोंका हित करनेकी
 इच्छासे द्वारकामें राजा द्रुपदको स्थापित कर उस सेनाको साथ
 ले चलदिये थे ५४ नन्दनर प्रभु श्रीकृष्णने वसुदेवकी प्रेरणासे

मभरकल्याणे वसुदेवप्रचोदितः ॥५५॥ दत्तगुल्माप्रतिसरं कृत्वा
 तं विधिनत् प्रभुः । प्रद्युम्नमदने श्रीमान् रत्नार्थं विनियुज्य च ५६
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि पट्पुरवधे
 कृष्णस्य पट्पुरगमने ष्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥

वैशम्पायन उवाच । मुहूर्ताभ्युदिते सूर्ये जनशत्रुषि निर्मले ।
 बलः कृष्णः सात्यकिश्च तार्क्ष्यगाम्भुस्तदा ॥ १ ॥ बद्धगोधां
 गुलिजाणा दंशिता युद्धकान्तिणः । विष्णोदकेश्वरं देवं नमस्कृत्य
 सुरोत्तमम् ॥ २ ॥ आशर्त्ताया जले स्नात्वा रुद्रेण वरदत्तया ।
 गङ्गायाः कुक्षशार्दूल यद्रवाक्त्रेण पुण्यया । प्रद्युम्नमग्रे सैन्यस्य
 नियतिं स्याप्य मानदः । रत्नार्थं यज्ञवाटस्य पाण्डवान् विनियुज्य
 च ॥ ४ ॥ शोपां सेनां गुहाद्वारि भगवान् जयन्त-

परम कल्याणमय देशमें प्रद्युम्नको परिभ्रमणमें रत्ना करनेके
 नियुक्त कर दिया और अपनी सेनाकी बोलियोंके लिये जहाँ पर
 घूमना अनिष्ट नहीं देखता था तहाँ छावनी डालदी वह स्थान
 यज्ञवाटके समीप ही था ५५-५६ तिरासीवाँ अध्याय समाप्त ८३

वैशम्पायनजीने कहा; कि-जब सूर्यके उदय हुए मुहूर्त भर
 बीत गया और मनुष्योंके नेत्र निर्मल होगए, तब विष्णोदकेश्वर
 देवको प्रणाम करके बलदेव कृष्ण और सात्यकि युद्धकी
 आकांक्षासे शायमें गोहके चमड़ेके दस्ताने और कबच पहन पर
 गरुड़ पर सवार होगए ॥१॥२॥ हे कुक्षशार्दूल ! उन्होंने जिसके
 रुद्रने वर दिया था, ऐसी पुण्यमयी आशर्त्ता गंगामें रुद्रके वचन
 से स्नान भी किया था ॥ ३ ॥ उन मान देने वाले श्रीकृष्णने
 आकाशमें भागमें सेनाके अग्रभागमें प्रद्युम्नको स्थापित कर
 दिया और यज्ञवाटकी रक्षाके लिए पाण्डवोंको नियुक्त कर
 दिया ४ बाकी सेनाको भगवान्ने गुहाके द्वारपर नियुक्त कर
 दिया, फिर सज्जनोंकी गति भगवान्ने जयन्त और मभरका

(७१२) * महाभारत हरिवंशपर्व २ * [चतुरशीतितम

मथ सस्मार मवरं च सतां गतिः ॥ ५ ॥ तावापेततुरेवाथ स्वयं
चापश्यतां तथा । विगत्येव नियुक्तां तौ मधुम्न इव भारत । वि-
ततः कृष्णस्य वचनादाहृतो रणदुन्दुभिः । जलगा सुरजारचैव
वाद्यान्ये वापराणि च ॥ ७ ॥ माकरो रचितो व्यूहः साम्बेन
च गदेन च । सारणश्रोद्धवश्च भोजो वैतरणस्तथा ॥ ८ ॥
अनाधृष्टिश्च धर्मात्मा पृथुविपृथुरेव च । कृतवर्मा च दंष्ट्रश्च निचल्लु-
ररिगर्दनः ॥ ९ ॥ सनत्कुमारो धर्मात्मा चारुदेष्णश्च भारत ।
अनिरुद्धसहायो तौ पृष्ठानीकं संरक्षतुः ॥ १० ॥ शोपा यादव-
सेना तु व्यूहमध्ये व्यवस्थिता । रथैरश्वैर्नरैर्नागीराकुला कुल-
वर्धन ॥ ११ ॥ पट्पुरादपि निष्क्रान्ता दानवा युद्धदुर्मदाः ।
आरुह्य मेघनादांश्च गर्दभानपि हस्तिनः ॥ १२ ॥ मकराच्छिञ्चशु-
मारश्च द्रुतानपि च भारत । महिषानपि खड्गांश्च छट्टानपि च
फच्छपान् ॥ १३ ॥ एतेरेव रथैर्युक्ता विविधायुधपाणयः । किरी-

ध्यान क्रिया ५ हे भारत ! तब वे दोनों आगए और उन्होंने
मधुम्नकी समान ही अपनेपे आकाशमें अर्थात् ऊपरि भागमें
नियुक्त हुआ देखा ६ तदनन्तर श्रीकृष्णके वचनसे रणका
नगाड़ा बजाया गया और सुरज जलगा तथा दूसरे बाजे भी
बजाए गए ७ साम्बने और गदने मकरव्यूह रथा, सारण उद्द-
व भोज वैतरण धर्मात्मा अनाधृष्टि पृथु निपृथु कृतवर्मा दंष्ट्र
अरिगर्दन, निचल्लु धर्मात्मा सनत्कुमार चारुदेष्ण यह सब
अनिरुद्धकी सहायता लेकर सेनाका पीठकी ओरसे संरक्षण
करने लगे ॥ ८-१० ॥ हे कुलवर्धन ! बाकी यादव—सेना
रथ घोड़े मनुष्य और हाथिपांसे लेकर व्यूहके बीचमें खड़ी हो
गई ११ उधर पट्पुरमेंसे भी युद्धदुर्मद दानव मेघकी समान
रथने वाले गदरों पर हाथियों पर मगरों पर सूँसों पर और
हे भरतवंशी राजन् ! शीघ्रगामी भैंसों पर गँदों पर ऊँटों पर

टापीडमुकुटैरद्गदैरपि गण्डिताः ॥ १४ ॥ नानर्दमानैर्विविधै-
 स्तूर्यैर्नेमिस्वनाकुर्नैः । प्रध्मायमानैः शंखैश्च महाम्बुदसमस्वनैः १५
 तासामसुरसेनानामुद्यतानां जनेश्वर । निकुम्भो निर्ययावग्रे
 देवानामिव वासवः ॥ १६ ॥ भूमिं घ्रां च वटुधिरं दानवास्ते
 बलोत्कटाः । नन्दगो विविमान् नादान् स्वदन्तश्च पुनः पुनः १७
 रामसेनापि संगत्वा चेदिराजपुरोगण । असुराणां सहायार्थं
 निश्चिता जनमेजय १८ दुर्योधनं भ्रातृशतं चेदिराजानुजाग्रजम् ।
 स्थितं रथैर्नरव्याघ्र गन्धर्वनगरोग्रैः ॥ १९ ॥ कठिना नादिनो
 वीरा दुपदस्वन्दनास्तथा । रुक्मी चैवाद्भृतिश्चैव तस्थतुर्निश्चिता

और कल्लुगोंपर चढ़ कर निकल आये १२-१३ ऐसे ऐसे रथोंपर
 वे अनेकों प्रकारके आयुधोंको लेकर सवार थे, फिरीट और
 आपीड़ मुकुट तथा अगदोंसे अर्थात् बाजूबन्दोंसे भूषित हो रहे
 थे ॥ १४ ॥ तहों पर रथकी नेमिका और अनेक प्रकारके तूखों
 का बारम्बार नाद हो रहा था और बड़े भारी मेघके समान
 शब्द करने वाले बड़े २ शंख तहों बजाये जा रहे थे ॥ १५ ॥ हे
 जनेश्वर ! जब वे असुरसेनाएँ इस प्रकार उद्यत हो गईं, उस
 समय जैसे इन्द्र देवताओंके आगे आवे इसी प्रकार निकुम्भ भी
 उनके आगे आगया ॥ १६ ॥ वे बलमें उत्कट दानव अनेक प्रकार
 की गर्जना करते हुए और भुजाओं पर थपेड़ा मारते हुए आकाश
 और भूमिमें फैलने लगे ॥ १७ ॥ हे जनमेजय ! उस समय असुरों
 की सहायता करनेका जिसने निश्चय किया था ऐसी चेदिराज
 आदि राजाओंकी सेना भी तयार हो गई ॥ १८ ॥ हे नरव्याघ्र !
 उस समय चेदिराजके छोटे भाइयोंसे आगे राजा दुर्योधन अपने
 सौ भाइयोंके साथ गन्धर्वनगरकी समान रथोंमें बैठ कर स्थित
 होगया ॥ १९ ॥ कठिनतासे नाद करनेवाले वीर दुपदके
 रथ तथा रणका निश्चय करने वाले और रुक्मी और आद्भृति

श्वरम् । शलभाः कालपाशाताः प्रदीप्तमिव , पावकम् ॥ ३४ ॥
 समुत्सृज्य शतघ्नीश्च परिघांश्च सहस्रशः । शूलानि चाग्नि-
 तुल्यानि प्रदीप्ताश्च परश्वधान् ॥ ३५ ॥ पर्वताग्राणि वृक्षाश्च
 घोराश्च विधुलाः शिलाः । उत्तिप्प च-गजान गत्तानूथानपि
 हपानपि ॥३६॥ नारायणाग्निस्तान् सर्वांन् ददाह, महसग्निव ।
 वाणाधिपा महातेजा जगद्धितकरो हरिः ॥ ३७ ॥ शारदं वर्षणं
 यद्भूत् सेहे धीरो गवां पतिः । तद्वद्यदुष्टपः सेहे वाणवर्षमरिदमः ।
 न सेहिरे सुरा वाणान् नारायणधनुश्च्युतान् । वर्षं पर्जन्यविहितं
 बालुकासेतवो यथा ॥ ३६ ॥ न शोकः प्रमुखे स्थातुं कृष्णस्था-
 सूरसत्तमाः । व्यादितास्पस्य सिंहस्य वृषभा इव भारत ॥४०॥
 ते बध्यमानाः कृष्णेन दिवमाचक्रमुस्तदा । जीविताशां बहन्तस्तु

हुए दानव कृष्णको देखकर उनकी ओर भ्रूपटे ॥ ३४ ॥ वे
 सहस्रों तोप और परिघ और अग्नि की समान प्रदीप्त परश्वध,
 पर्वतके अग्रभाग और भारी २ भयंकर शिलाएँ छोड़ते हुए
 और मदमत्त हाथी तथा रथोंको और घोड़ोंको हाँकते हुए
 (नारायणाग्नि की ओर दौड़ने लगे) ॥ ३५) जगत्का हित
 करनेवाली महातेजस्वी हरि (रूप) नारायणाग्नि बाणोंकी
 उबालासे हँसकर उन सबको भस्म करने लगी ॥ ३७ ॥ धैर्य-
 धारी बैल जैसे शरद ऋतुकी वर्षाको सहता है, इसी प्रकार
 अरिदमन यादवोंमें वृषभकी समान श्रीकृष्ण उनकी वाणवर्षा
 को सहते रहे ॥ ३८ ॥ परन्तु बालुके पुल जैसे मेघकी वर्षाको
 सहन नहीं कर सकते इसी प्रकार असुर नारायणके धनुषमेंसे
 छूटते हुए याणोंको न भेचसके ॥ ३६ ॥ हे भारत ! जैसे
 मूख फाड़कर खड़े हुए सिंहके सामने टौल नहीं टिकते हैं, इसी
 प्रकार वे प्रधान २ असुर भी कृष्णके सामने खड़े न रहसके ४०
 कृष्णसे पिटते हुए राजस नारायणके भयसे पीड़ित हो जीवन

नारायणभयादिताः ॥ ४१ ॥ नानाकाशगतानैन्द्रिर्जयन्तः प्रवर-
स्तथा । निजघ्नतुः शरैर्वोरैर्ज्वलिताचिसमैः प्रभो ॥ ४२ ॥
निपेतुरसुराणां तु शिरांसि धरणीतले ॥ तृणराजफलानीव
मुक्तानि शिखरात्तरोः ॥ ४३ ॥ निपेतुर्वाह्वश्चिच्छन्ना दैत्यानां
वसुधातले । बलिनीपहणा वीराः पञ्चबक्रा इवोरंगाः ॥ ४४ ॥
रौक्मिणोपस्ततः सृष्ट्वा घोरां गायामयीं गुहाम् ॥ अदृश्यनिष्क्रमं
वीरः क्षत्रं प्रक्षेप्तुमुग्रतः ॥ ४५ ॥ गदेन सह धर्मात्मा सारणेन
सुतेन च । साम्बेन चापरैश्चापि पूर्वं ये न प्रवेशिताः ॥ ४६ ॥
प्रमथ्य तरसा कर्णं पतन्तं रणमूर्धनि । जग्राह बलवान् कार्णिकः
प्रस्फुरन्तं ततस्ततः ॥ ४७ ॥ विनद्य च गुहां वीरो घोरां गाय-

की आशासे स्वर्ग (आकाश) में को उड़लाने लगे ॥४१॥ हे
प्रभो ! तहाँ अनेक प्रकारसे आकाशमें पहुँचे हुए राक्षसोंको
इन्द्रपुत्र जयन्त और प्रवर प्रदीप्त लपटवाले अग्निवी समान
भयंकर बाणोंसे मारने लगे ॥ ४२ ॥ उस समय आकाशमें
से असुरोंके शिर पृथिवीमें ऐसे गिरते थे जैसे पर्वतके शिखरसे
तरुजा तड़के फल टूट कर गिरतेहों ॥४३॥ दैत्योंकी कटी
धुमाएँ पृथिवीमें इस प्रकार गिरने लगीं कि-मानों मारण्यसे
मारे हुए पाँच फनवाले साँप गिर रहेहों ॥ ४४ ॥ उस समय
वीर रुक्मिणीपुत्रने मायाकी एक भयंकर गुफा बनाई, उसका
निकलनेका द्वार अदृश्य रक्खा गया था उसमें वह क्षत्रियोंको
फँकनेके लिये उद्यत होगया ॥ ४५ ॥ इस समय जो (निकु-
म्भकी) गुफामें फँसनेसे बच गए थे वे गद सारण साम्ब
और (इनके) पुत्र भी उस धर्मात्माकी (सहायता करनेको
उद्यत होगए) ॥ ४६ ॥ उस समय श्रीकृष्णपुत्रने रणके मुहाने
पर घूमते हुए कर्ण राना दुर्योधन विराट द्रुपद शकुनि शन्य
नील भीष्म विन्द अनुविन्द तथा जरासंधको तथा त्रिगर्त और

मभी नृप । दुर्योधनं च राजानं विराटद्रुगदावपि ॥४८॥ शकुन्ति
 चैव शल्यं च नीलं चापि नदीसुतम् । विन्दानुविन्दौ राजानौ
 जरासन्धं च भारत ॥ ४९ ॥ त्रिगर्तान् मालवांश्चैव वासत्याश्च
 महायज्ञान् । धृष्टद्युम्नादिकांश्चैव पाञ्चालानस्रकोविदान् ॥ ५०
 तथाहृष्टिसृष्टिवाचेदं मातुलं रुक्मिणेश्च च । शिशुपालं च राजानं
 भगदत्तं च भारत ॥ ५१ ॥ सम्बन्धं च गुरुत्वं च मानसागि
 त्तराधिपाः । गुहागिमां घोररूपां यत्र प्रक्षेपयामि वः ॥ ५२ ॥
 विन्वोदकेश्वरेणाहं आज्ञप्तः शूलपाणिना । मत्क्षेप्तव्या नरेन्द्रास्ते
 गुहायागिति धीमता ॥ ५३ ॥ आश्रित्य शाम्बरीं मायां निकुम्भेन
 महात्मना । मत्क्षिप्तान् यादवांश्चैव मोक्षयिष्यामि सर्वथा ॥ ५४ ॥
 इत्युक्तो शिशुपालस्तु राजा सेनापतिस्तथा । शरैस्ततर्द्ध तान्भैमान्
 प्रद्युम्नं च विशेषतः ॥ ५५ ॥ विन्वोदकेश्वरं देवं रौक्मिण्यो

वासन्तीमें रहने वालोंको और अश्वत्थुर धृष्टद्युम्न आदि
 पाञ्चालोंको आन्हृति और मामा रुक्मीको राजा शिशुपालको
 और भगदत्तको बलपूर्वक पकड़ लिया, फिर हे भरतवंशी
 राजन् ! उसने मायागयी गुफामें गर्जकर इनसबसे कहा, कि-५१
 हे राजाओं ! मैं तुम्हारे संबंध और बहप्पनका मान करता हूँ,
 अतएव मैं तुम्हें, इस मायागयी गुफामें फेंके देता हूँ (और
 तुमको कष्ट नहीं देता हूँ) ॥ ५२ ॥ शूलपाणि युद्धिगान्
 विन्वोदकेश्वरने मुझे आज्ञा दी थी, कि-तू राजाओंको गुफामें
 डाल देना ॥ ५३ ॥ और शाम्बरासुरकी मायाका आश्रय लेकर
 महात्मा निकुम्भने जिन यादवोंको कैद कर रक्खा है, उनको
 भी मैं सब प्रकारसे छुड़ाऊँगा ॥ ५४ ॥ इस प्रकार कहने पर
 सेनापति राजा शिशुपाल (गुफाके भीतर ही) उन भीम-
 वंशियोंको और विशेषत मद्युम्नको बाणोंसे ताड़ित करने
 लगा ॥ ५५ ॥ उस समय मद्युम्न विन्वोदकेश्वरदेवको प्रणाम

नमस्य च । आरभन्तृपतिं वदधुं शिशुपालं महाबलम् ॥ ५६ ॥
 ततः पाशसहस्राणि गृह्याय प्रवरोत्तमः । शैलादिरत्नवीहीरं रौक्मि-
 ण्येयं महाबलम् ॥ ५७ ॥ विन्वोदकेश्वरो देवः प्राह, त्वां यदु-
 यन्दन । सर्वं कुर्व तथा राज्यां चोक्तस्त्वं भो यथा मया ॥ ५८ ॥
 कन्यार्थं रत्नलुब्धास्तु वध्वा चेमान्नराधिपान् । पाशैस्त्वमेव मोक्तुं
 च प्रमाणं यदुनन्दन ॥ ५९ ॥ असुरास्तु महाबाहो निःशोपान्कर्तु-
 मर्हसि । एवमेव च वक्तव्यस्त्वया वीर जनार्दन ॥ ६० ॥ ततः
 स भगदत्तं च शिशुपालं च भूमिप । आभृतिं चैव रुक्मि च
 शोर्पाश्चान्याननराधिपान् ॥ ६१ ॥ बबन्ध हरदत्तैः पाशैरुत्त-
 मवीर्यधृक् । मायामयीं गुहां चैवमानयत्कुरुनन्दन ॥ ६२ ॥ वध्वा
 च रौक्मिण्येयोथ निःश्वसन्त इवोरगान् । अनिरुद्धं चकाराय
 रक्षितारं स्वमात्मजम् ॥ ६३ ॥ तेषां निरवशेषेण बबन्ध यदु-

क्त महाबली राजा शिशुपालको बाँधनेका आरम्भ करने
 लगा ५६ उस समय गणोंमें श्रेष्ठ नन्दी सहस्रों पाशोंको (हाथमें)
 उठाकर महाबली वीर रुक्मिणीपुत्रसे कहने लगा कि-॥ ५७ ॥
 हे यदुनन्दन ! राज्रिमें विन्वोदकेश्वर देवने तुमसे जो कुछ कहा
 है और मैंने जो कुछ कहा है उसी प्रकार करिये ॥ ५८ ॥
 हे यदुनन्दन ! रत्न और कन्याओंके लोभी इन राजाओंको पाशों
 से बाँधनेके बाद इनको छोड़नेका अधिकार आपको ही होगा ५९
 हे महाशुज, वीर ! तुम जनार्दनसे इस प्रकार कहना, कि-आप
 असुरोंका पूर्णरीतिसे, संहार करिये ॥ ६० ॥ हे कुरुनन्दन !
 तदनन्तर उत्तम वीर्यको धारण करनेवाले मधुम्नने शिवजीके दिये
 हुए पाशोंसे भगदत्तको शिशुपालको आभृतिको रुक्मीको तथा
 दूसरे राजाओंको भी बाँध कर मायामयी गुहामें डाल दिया
 हे कुरुनन्दन राजन् ! इस प्रकार मधुम्नने फुड्डारें भरते हुए सर्पों
 की समान उन राजाओंको बाँध कर अपने पुत्र अनिरुद्धको उन

नन्दनः । सेनापतीन् क्षत्रियांश्च कोशाध्यक्षांश्च भारत ॥ ६४ ॥
हस्त्यश्वरथचन्द्रांश्च चकार च तथात्मसात् । अन्यग्रस्तु ततो
हन्तुमसुरानुद्यतः प्रभो ॥ ६५ ॥ सन्नद्ध एव चोक्ताच ब्रह्मदत्तं
द्विगोचमम् । विस्रब्धं वर्ततां कर्म मा भैः पश्य धनञ्जयम् ६६
न देवेभ्यो नासुरेभ्यो नागेभ्यो द्विजसत्तम । भयं हि विद्यते तस्य
गोप्तारो यस्य पाण्डवाः ॥ ६७ ॥ न चासुरैस्तव सुताः स्पृष्टाः
खल्वपि चेतसा । यज्ञवाटे निरीक्ष्यतां मायया निहिता मया ६८

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि ।

पट्पुरवधे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥

वैशम्पायन उवाच । रुद्रेषु भूमिपालेषु सानुगेषु विश्वापते ।
आबिवेशासुरश्चाथ क्रमलं जनमेजय ॥१॥ दिशः प्रतस्थुस्ते

की देखगालके लिये नियुक्त कर दिया ॥ ६१-६३ ॥ हे भरत-
वंशी राजन् ! यदुनन्दन मधुमनने उनके क्षत्रिय सेनापति और
कोषाध्यक्षोंको भी एक एक करके बाँध लिया ॥ ६४ ॥ और
उनके हाथी घोड़े और रथोंके टोलोंको अपने अधीन कर लिया
तदनन्तर हे प्रभो ! वह निश्चिन्त होकर असुरोंको मारनेके लिये
उद्यत होगया ॥ ६५ ॥ उसने तयार होकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मदत्त
से कहा, कि-आप विश्वस्त होकर कर्म करे जाइये और धनञ्जय
की ओर देखिये, हरिये मत ॥ ६६ ॥ हे द्विजसत्तम ! जिसके
पाण्डव रक्षक होते हैं उसको देवता असुर और नाग भी भयभीत
नहीं करसकते ॥ ६७ ॥ असुरोंने तुम्हारी पुत्रियोंका मनसे भी
स्पर्श नहीं किया है, मैंने उनको मायासे हर कर उनकी घरोहड़की
की समान रक्षाकी है (अब) आप उनको यज्ञवाटमें देखसकते
हैं ६८ चौरासीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८४ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-हे राजन् जनमेजय ! जब अपने
अनुपायियों सहित सब राजे कैद होगए उस समय असुरोंमें दर

वीरा वध्यमानाः समंततः। कृष्णानन्तपभृतिभिर्गुण्डुभिर्दुर्मदैः २
 निकुम्भस्तानथोवाच रूपितो दानवोत्तमः । भित्वा मतिर्ज्ञा किं
 मोहाद्भगवार्ता यात बिहलाः ॥ ३ ॥ हीनप्रतिज्ञा कान्त्वोकान्
 प्रयास्यथ पलायिताः । अगत्वाऽपचिति युद्धे ज्ञातीनां कृत-
 निश्चयाः ॥ ४ ॥ फलं जित्वैव भोक्तव्यं रिपून् समरकर्कशान्।
 इतेन चापि वस्तव्यं शूरेण त्रिदिवे सुखम्प्रपलायित्वा गृहं गत्वा
 कस्य हृदयथ हे सुखम् । दारान् वक्ष्यथ किं चापि धिग्धिकिं
 लज्जथ ॥ ६ ॥ एवमुक्त्वा निवृत्तास्ते लज्जगाना नृपासुराः ।
 द्विगुणेन च वेगेन युयुधुर्यदुभिः सह ॥ ७ ॥ उत्सवै युद्धशौ-
 ढानां नानामहरणैर्नृप । ये यान्ति यज्ञघाटं त तान्निहन्ति धन-
 ज्ञयः । यर्षो भीमश्च राजा च धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ८ ॥ यां

वैठ गया ॥ १ ॥ और वे वीर कृष्ण धराराग आदि युद्धदुर्मद
 यादवोंसे पिटनेके कारण दिशाओंमें चारों ओरको भागने लगे २
 उस समय श्रेष्ठ दानव निकुम्भने क्रोधमें भरकर उनसे कहा, कि-
 तुम डर कर अपनी प्रतिज्ञाको तोड़ कर मोह वश क्यों भागे
 जाते हो ३ तुमने अपनी जाति वालोंसे उभ्रण होनेका निश्चय
 कर लिया था अब अपनी प्रतिज्ञाको तोड़नेसे (न जाने) तुम्हें
 कौनसे लोक मिलेंगे ४ समरकर्कश शत्रुओंको जीतकर ही फल
 भोगनेको मिल सकता है और यदि शूर पुरुष रणमें मारा
 जाता है तो स्वर्गमें आनन्द करता है ५ अरे ! यदि तुम भाग
 कर घरको चले जाओगे तो क्या सुख पासकोगे और-अपनी
 स्त्रियोंसे भी क्या कहोगे धिक् धिक् क्या तुम लज्जित नहीं होते
 हो ६ हे राजन् ! ऐसी बातें सुन कर वे असुर लगाते हुए
 लौट पड़े और दुगने वेगसे यादवों से लड़ने लगे ७ हे राजन् !
 इस प्रकार जब अनेक प्रकारके आयुधोंसे युद्धचतुर पुरुषोंका
 उत्सव चल रहा था उस समय जो राजे, यज्ञघाटकी ओर जाते

प्रयाताञ्जवानैन्द्रिः प्रवरश्च द्विजोत्तमः ॥ ६ ॥ अथासुरासृक्तो-
यादया केशशैमलशाडुचला । चक्रकर्परथावर्ता गजशैलानुशो-
भिनी ॥ १० ॥ ध्वजकुवतरुच्छ्रन्ना स्तनितोत्क्रुष्टनादिनी ।
गोविन्द्रशैलमभवा भीरुचित्तप्रमाथिनी ॥ ११ ॥ असृगुद्गुद-
फेनादया असिमत्स्वतरंगिणी । सुस्राव शोणितनदी नदीव
जलदागमे ॥ १२ ॥ तान् दृष्ट्वैव निकुम्भस्तु नर्धमानांश्च शात्र-
वान् । हतान् सर्वान् सहायांश्च वीर्यादेवोत्पपात ह ॥ १३ ॥
स नारितो जगन्तेन प्रवरेण च भारत । शरैः कुलिशसंकाशै-
निकुम्भो रणकर्कशः ॥ १४ ॥ सन्नितृत्पाथ दष्टौष्ठः परिषेण
दुरासदः । प्रवरं ताडयामास स पपान महीतले ॥ १५ ॥ ऐन्द्रिस्तं

ये उनको धगझग जुकुल सहदेव भीमसेन और धर्मपुत्र राजा
युधिष्ठिर मारडालने थे = और जो आकाशको जाते थे उनको
इन्द्रपुत्र जगन्त और ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ प्रवर मारडालते थे ६ तद-
नन्तर असुरोंके रक्तरूपी जलसे भरी हुई वैशरूपी सिंघारसे
ढटी हुई पहियोंके टुकड़े और रथके भँवर वाली पर्वत रूपी
हाथियोंसे शोभा पाती हुई ध्वज और कुन्तरूपी वृत्तोंसे घिरी
हुई पिटते हुए और चीखते हुए गजुप्योंका नाश करती हुई
गोविन्द्ररूपी पर्वतसे निकली हुई डरपोकोंके चित्तको दहलाने
वाली रक्तके बुलबुले रूप भागीसे भरी हुई तलवाररूपी गच्छ
और तरङ्गो वाली रक्तकी नदी बर्षा श्रुतमें बहने वाली नदीकी
समान बहने लगी १०—१२ निकुम्भ अपने शत्रुओंको चढ़ता
हुआ देख कर और अपने सब सहायकोंको मरा हुआ देख
कर बलपूर्वक उड़ता १३ हे भरतवंशी राजन् ! उस समय जग-
न्तने और प्रवरने ब्रह्मही संगान वाणोंसे रणकर्कश निकुम्भको
अटकया १४ उस समय दुरासद निकुम्भ अपने आँठोंको काटता
हुआ लांछा और प्रवरके परिवेय पारा तब यह भूमिमें गिरपड़ा १५

पतितं भूमौ बाहुभ्यां परिपरवजे । निदित्वा चैव सप्राणं हित्वा
 सुरमभिद्रुतः ॥ १६ ॥ अभिद्रुत्य निकुम्भं च निरिन्त्रशेन गधान
 ह । परिघेणापि दैतेयो जयन्तं समताडयत् ॥ १७ ॥ ततश्च बहुलं
 गात्रं निकुम्भस्यैन्द्रिराहवो । स चिन्तयामास तदा बध्यमानो महा-
 सुरः ॥ १८ ॥ कृष्णेन सह योद्धव्यं , बैरिणा ज्ञातिघातिना ।
 श्रावयामि क्षिमात्मानमाहवे शकसूनुना । १९ ॥ एवं स निश्चयं
 कृत्वा तत्रैवान्तरधीयत । जगाम चैव युद्धार्थं यत्र कृष्णो महा-
 बलः ॥ २० ॥ तं दृष्ट्वा रावतस्कन्धमास्त्रिणो बलनाशनः ।
 दृष्टमभ्यागतो युद्धं जहृपे सह दैवतैः ॥ २१ ॥ साधु साध्वसि
 पुत्रश्च परितुष्टः स, सस्वजे । मवरं चापि धर्मात्मा सम्पजे गोह-
 वर्जितम् ॥ २२ ॥ देवदुन्दुभयरचापि प्रणेदुर्वासबाह्वया । जय-

उस समय इन्द्रपुत्र जयन्तने भूमिमें पड़ेहुए प्रवक्ता दोनों युवाओं
 से पकड़कर आलिङ्गन किया और उमड़े प्राणवान जान कर
 अमुरकी ओर दौड़ा १६ और दौड़ कर निकुम्भके तलवारसे
 मारा तब उस राक्षसने जयन्तके भी परिघ मारा १७ तदनन्तर
 इन्द्रपुत्रने निकुम्भके बहुतसे शरीरको छेद डाला उस समय बह
 युद्धमें पिटा हुआ महाराक्षस विचारने लगा, कि-१८ युधे तो
 अपने ज्ञातिवालका नाश करनेवाले बेरी कृष्णके साथ ही युद्ध
 करना चाहिये युद्धमें इन्द्रपुत्रके साथ लड़ कर मेरी क्या
 प्रसिद्धि होगी अर्थात् इसके साथ लड़नेसे मेरी कुल प्रशमा नही
 होगी १९ इस प्रकारका विचार करके वह तहाँ ही अन्तर्धान
 होगया और जहाँ पर महाबली कृष्ण खड़े थे तहाँपर युद्ध करने
 के लिये पहुँचगया २० इस बातको देखकर बलदैत्यका नाश करने
 वाला इन्द्र ऐरावतपर सवार हो युद्ध देवनेके लिये आगया और
 देवताओं सहित प्रसन्न होने लगा २१ उस समय उसने मसन्नता
 से साधु कह अपने पुत्रका आलिङ्गन किया तदनन्तर उस धर्मा-

मानं रणे दृष्ट्वा जगन्तं रणदुर्जयम् ॥ २३ ॥ ददर्शाथ निकुम्भ-
स्तु पेशवां रणदुर्जयम् । अर्जुनेन स्थितं सार्धं यज्ञवाटाविदू-
रतः ॥ २४ ॥ स नादं सुमहान् कृत्वा पत्तिराजमताहयत् ।
परिघेण सुत्रोरेण बलं सत्यकमेव च ॥२५॥ नारायणं चार्जुनं
च भीमं चाथ युधिष्ठिरम् । यमौ च वासुदेवं च साम्बं कामं च
वीर्यवान् ॥ २६ ॥ युयुधे मायया दैत्यः शीघ्रकारी च भारत ।
न चैनं ददृशुः सर्वे सूर्यशास्त्रविशारदाः ॥ २७ ॥ यदा तु नैवा-
पश्यन्स्तं तदा विन्वोदकेश्वरम् । दध्यौ देवं हृषीकेशं प्रमथानां
गणेश्वरम् ॥ २८ ॥ ततस्ते ददृशुः सर्वे प्रभावादतितेजसः ।
विन्वोदकेश्वरभ्याशु निकुम्भं मायिनां वरम् ॥ २९ ॥ कैलास-
शिखराकारं ग्रसन्तमिव धिष्टितम् । आह्वयन्तां रणे कृष्णं वैरिणं

रूपाने मोहशुन्ध प्रवरको भी आलिपन किया २३ उस समय
रणदुर्जय जगन्तको रणमें जीतता हुआ देखकर इन्द्रकी आज्ञा
से देवदुन्दुगिये वगने लगीं ॥२३॥ तदनन्तर रणदुर्जय निकुम्भने
अर्जुनके साथ ही श्रीकृष्णको यज्ञवाटके समीप ही खड़े हुए
देखा ॥ २४ ॥ तदनन्तर उसने बड़ो भारी शब्द कर भयंकर
परिघसे गरुड़ बलदेव सात्यकि श्रीकृष्ण भीम अर्जुन युधिष्ठिर
नकुल सहदेव तथा साम्ब और प्रद्युम्नको भी पीटना आरम्भ
करदिया ॥२५॥२५॥ हे भरतवंशी राजन् ! इससमय वह फुरीला
दैत्य मायोसे युद्ध कर रहा था इस लिये शत्रुचतुर पुरुषोंकी
दृष्टिमें वह नहीं पड़ता था २७ जब यादव उसको न देखसके
तब उन्होंने इन्द्रियोंके स्वामी और प्रमथ नामक गणोंके ईश्वर
विन्वोदकेश्वर देवका स्मरण किया २८ तब उन्होंने अमिततेजस्वी
विन्वोदकेश्वरके प्रभावसे शीघ्र ही माया करने वालोंमें श्रेष्ठ
निकुम्भको देखा ॥ २९ ॥ उसका आकार कैलास पर्वतके
शिखरकी समान था वह रणमें आने जातिवालोंके नाशक

ज्ञातिनाशनम् ॥३०॥ सज्य गाण्डीवमेवाथ पार्थस्तस्य रथेषुभिः ।
परिघं चैव गात्रेषु विज्याधैनमथासकृत् । ३१ ॥ ते चाणास्तस्य
गात्रेषु परिघे च जनाधिप । भग्नाः शिलाशिताः सर्वे निपेतुः
कुण्ठिताः क्षितौ ॥ ३२ ॥ विफलानस्त्रयुक्तास्तान दृष्ट्वा चाणान्
धनञ्जयः । पमञ्च केशवं वीरः किमेतदिति भारत ॥ ३३ ॥
पर्वतानपि भिन्दन्ति मम वज्रोपमाः शराः । किमिदं देवकीपुत्र
विस्मयोऽत्र महान् मम ॥ ३४ ॥ तमुवाच ततः कृष्णः महस-
न्निव भारत । गहद् भूतं निकुम्भोऽयं कौन्तेय शृणु विस्तरात् ३५
पुरा गत्वोत्तरकुर्लस्तपश्चक्र महासुरः । शतं वर्षसहस्राणां देव
शत्रुर्दुरासदः ॥३६॥ अर्धौनं ह्यन्दयापास वरेण भगवान् हरः ।
स वज्रे त्रीणि रूपाणि न बध्यानि सुरासुरैः ॥ ३७ ॥ तमुवाच

धौरी कृष्णको रणमें चुला रहा था और उनको प्रसता हुआसा
खड़ा था ॥ ३० ॥ उस समय अर्जुनने अपना गाण्डीव धनुष
रथकी ईषा और परिघ उसके शरीरमें बारबार मारे ॥ ३१ ॥ हे
राजन् ! वे शिलापर तेज किये हुए चाण उसके अङ्गोंसे और
परिघसे टकराकर टूटकर संकुचित होते हुए गिरपड़े ॥ ३२ ॥ हे
भरतवंशी राजन् ! उस समय धनञ्जयने अपने अर्धौको विफल
हुआ देखकर कृष्णसे कहा, कि—यह क्या होरहा है ॥ ३३ ॥ हे
देवकीपुत्र ! मेरे वज्रकी समान चाण पर्वतोंको भी तोड डालते
हैं फिर अब यह क्या होरहा है इसका मुझे बड़ा विस्मय है ३४
हे भरतवंशी राजन् ! उस समय श्रीकृष्णने मुझुराते हुए
कहा, कि हे कौन्तेय ! यह निकुम्भ अमित पराक्रमी है इस बात
को तप विस्तरसे सुनो ॥ ३५ ॥ पहले इस दुरासद देवशत्रुने
उत्तर कुर्लमें जाकर तप किया था ३६ उस समय भगवान्
हरने उससे वर माँगनेके लिये कहा तब इसने देवता और
राक्षसोंसे अवध्य होने वाले तीन देह माँगे थे ३७ उस समय

महादेवो भगवान् वृषभ-वनः । मम चा ब्राह्मणानां चा विष्णो-
 र्वाऽपियमाचरन् ॥ ३८ ॥ भविष्यसि हरेर्वध्यो न त्वन्यस्य महा-
 सूर । ब्रह्मण्योऽहं च विष्णुञ्च विमाणां परमा गतिः ॥ ३९ ॥
 स एष सर्वाशस्त्राणावबध्यः पाण्डुनन्दन । त्रिदेहोऽतिप्रमाथी
 च वरमत्तरच दानवः ॥ ४० ॥ भानुमत्यापहरणे देहोऽस्त्यौको
 हतो मया । अबध्यं पट् पुरं देहमिदमस्य दुरात्मनः ॥ ४१ ॥
 दिनिं शुश्रूषति त्वेको देहोऽस्य तपसान्वितः । अन्यस्तु देहो
 घोरोऽस्य येनावसति पट् पुरम् ॥ ४२ ॥ एतत्तु सर्वमाख्यातं
 निकुम्भचरितं मया त्वरयाव बधे वीर कथा पश्चाद्भवि-
 ष्यति ॥ ४३ ॥ तयोः कथयतोरेष कृष्णयोरसुरस्तदा । गुहां
 पट् पुरसंज्ञां तां विवेश रणदुर्जयः ॥ ४४ ॥ अन्विष्य तस्य भन-

ष्टपभध्वज महादेवने वससे कहा था, कि-यदि तुम मेरा ब्राह्मणों
 का अथवा विष्णुका अप्रिय काम करोगे ३८ तब हे महाअसुर !
 तुम विष्णुसे बध्य होनाओगे और कोई तुम्हें न मार सकेगा मैं
 और विष्णु ब्रह्मण्य हैं तथा ब्राह्मणोंकी परमगति है ३९ हे
 पाण्डुनन्दन ! इसलिये यह दानव सब शस्त्रोंसे अबध्य है तीन
 देहोंके धारण करनेवाला है अनिःपान करनेवाला है और यह
 दानव वरके कारण घण्टडमें भरा रहता है ४० मैंने भानुमतीका
 हरण करते समय इसके एक देहको नष्ट करदिया था इस
 दुर्गात्माका यह पट् पुरका देह अबध्य है ४१ इसका तपोयुक्त
 एक शरीर दितिकी सेवा कर रहा है और जिस शरीरसे यह
 पट् पुरमें रहता है यह इसका दूसरा भयंकर शरीर है ४२ इस
 प्रकार मैंने निकुम्भका सारा चरित्र तुमसे कह दिया वरन्तु
 हे वीर ! अब निकुम्भका बध करनेके लिये शीघ्रता करनी
 चाहिये चाते फिज होती रहेगी ४३ जब वे दोनों कृष्ण (अर्जुन
 भी कृष्ण कहलाना था) इस प्रकार बातचीत कर रहे उसी समय

वान् चिवेश मधुसूदनः । तां पट्पुरगुहां घोरां दुर्धर्पां कुरु-
नन्दन ॥ ४५ ॥ चन्द्रसूर्यपभाहीनां ज्वलन्तीं स्वन तेजसा ।
सुगन्धुःखोष्णशीतानि प्रयच्छन्तीं यथोत्सतम् ॥ ४६ ॥ तत्र
प्रविश्य भगवान् अपश्यत जनाधिपान् । युयुधे सह घोरेण
निकुम्भेन जनाधिप ॥ ४७ ॥ कृष्णस्यानुमधिष्ठास्तु यत्नाया या-
दवास्तदा । प्रविष्टाश्च तथा सर्गे पाण्डवास्ते महात्मनः ॥ ४८ ॥
समेतास्तु प्रविष्ठास्ते कृष्णस्यानुमतेन वी । युयुधे स तु कृष्णेन
रौक्मिण्येयः प्रचोदितः । अनयद्यादवान् सर्वान् गानयं बद्धवान्
पुरा ॥ ४९ ॥ ते मुक्ता रौक्मिण्येयेन प्राप्ता यत्र जनार्दनः ।
महृष्टमनसः सर्वे निकुम्भवप्रकाञ्चिणः ॥ ५० ॥ राजानो वीर
मुञ्चेति पुनः काम गथाब्रुवन् । सुतोच चाथ तान् वीरो रौक्मि-

वह रणदुर्ज १ निकुम्भ पट्पुर नामवाली गुफामें घुस गया ४४
हे कुरुनन्दन ! भगवान् मधुसूदन उसके जानेके मार्गको देख कर
पट्पुर नामवाली भयङ्कर और दुर्धर्ष गुफामें घुस गए ॥ ४४ ॥
वह चन्द्रमा और सूर्यकी कान्तिसे रहित थी अपनी ही कान्तिसे
प्रकाशित हो रही थी और इच्छानुसार दुःख सुख तथा
गर्मी सदी देती रहती थी ॥ ४६ ॥ हे राजन् ! तहाँ
पर घुस कर भगवान्ने गजाओंको देखा और भयं-
कर निकुम्भसे युद्ध करने लगे ४७ महात्मा कृष्णके प्रवेश करने
के बाद ज्वलराग आदि यादव और सब पाण्डव भी इकट्ठे हो
कर उस गुफामें घुस गए ४८ वे सब कृष्ण की अनुमतिसे ही तहाँ
घुसे थे उस समय कृष्णकी प्रेरणासे प्रद्युम्न भी युद्ध कर उन
सब यादवोंको लेश्ये, द्वि-जिनके निकुम्भने पहले बाँध रखा
था ४९ जब रौक्मिणीनन्दन प्रद्युम्नने उनको छुड़ा दिया तब वे
सब मनमें मसन्न होते हुए और निकुम्भका बंध चाहते हुए जहाँ
पर जनार्दन खड़े थे तहाँ पर पहुँच गए ५० प्रतापी रौक्मिणी

योगः मतापवान् ॥ ५१ ॥ अशोऽश्वत्थाम्नाः सर्वे बद्धमौजा नरा-
 धिपाः । लज्जताऽभिस्रुता वीरास्तन्धुर्नष्टश्रियस्तदा ॥ ५२ ॥
 निकुम्भमपि गोविन्दः प्रयतंतं जयं मति । योधयामास भगवान्
 घोरमात्परिपुं हरः ५३ परिघे षाह्नः कृष्णो निकुम्भेन भृशं
 विभो । मदया चापि कृष्णेन निकुम्भस्ताडितो भृशम् ॥ ५४ ॥
 तावुमौ मोहमापन्नौ सुमहारहतौ तदा । ततः प्रव्यथितान् दृष्ट्वा
 पाण्डवांश्चाथ योदवान् ५५ जेषुर्मुनिगणास्तत्र कृष्णस्य हित-
 काम्यया । तुष्टुवुश्च महात्मानं वेदोक्तैस्तथा स्तवैः ॥ ५६ ॥
 ततः प्रत्यागममाणो भगवान् केशवस्तदा । दानवश्च पुनर्वीरा-
 बुध्नतौ समरं प्रति ॥ ५७ ॥ वृषभाश्विन नर्दन्तौ गगाश्विन च
 भारत । शालावृकानिन क्रुदौ महरन्तौ रणोत्कटौ ॥ ५८ ॥

पुत्र जिस प्रकार वह राजे कहते गए थे, कि-हे वीर ! हमें तुम
 छुड़ाओ ! हमें तुम छुड़ाओ ! उसी प्रकार वे उनको छुड़ाते हुए
 चले गए ५१ उस समय सब राजाओंके मुख नीचेको ही रहे थे
 इनका मौन बंध रहा था और वे लज्जामें हूतते हुए राजे फीके
 पड़ रहे थे ५२ उस समय हरि गोविन्द भी जयन्ती और चेष्टा
 करते हुए अपने भर्त्सकर शत्रु निकुम्भसे लड़ने लगे ५३ हे विभो !
 उस समय कृष्णने निकुम्भको बहुत ही गारा ५४ जब वे दोनों अधिक
 महार करने पर मोहित होने लगे और पाण्डव तथा यादव भी
 व्यथित होने लगे तब उनको देख कर मुनि कृष्णके हितकी
 इच्छासे जप करने लगे और उन महात्माकी वेदोक्त स्तोत्रोंसे स्तुति
 करनेलगे ५५-५६ तदनन्तर भगवान् केशवमें और दानवमें भी
 प्राणसे आये और वे दोनों वीर सपरमें युद्ध करनेके लिये फिर
 तयार हो गए ५७ हे भरतवंशी राजन ! वे रणोत्कट वृषभ और
 हाथीकी समान शब्द कर तथा भेड़ियेकी समान क्रोधमें भरकर

अथ कृष्णं तदोवाच नृपं चांगशरीरिणी । चकोण शमयस्वीनं
 देवव्राहाणकण्डम् ॥ ५६ ॥ इति होवान भगवान् देवो विन्वो-
 दकेश्वरः । धर्मं यशश्च विपुलं प्राप्नुहि त्वं महाबल ॥ ६० ॥
 तथेत्युक्त्वा जगस्कृत्वा लोकनाथः सर्वा गतिः । सुदर्शनं गुणो-
 चायं चक्रं दैत्यकुलान्तकम् ॥ ६१ ॥ तन्निकुम्भस्य चिच्छेद शिरः
 मवरकुण्डलम् । नारायणभुजोत्सृष्टं सूर्यगण्डलवर्चसम् ॥ ६२ ॥
 उत्पान शिरस्तस्य भूर्गो ज्वलितकुण्डलम् । मेघमत्तो गिरेः
 शृङ्गान्गयूर इव भूगले ॥ ६३ ॥ निकुम्भे निहते तस्मिन् देवो
 विन्वोदकेश्वरः । तुषोप च नरव्याघ्र जगत्त्रासकरो विभुः ६४
 पपात पुष्पट्टिश्च शक्रसृष्टा नभस्तलात् । देवदुन्दुभयश्चैव मणोदु-
 ररिनाशने ॥ ६५ ॥ ननन्द च जगत् कृस्नं मुनयश्च विशेषतः ।

प्रहार करने लगे ५८ कुञ्ज समयके उपरान्त मनुष्योंके पालक
 श्रीकृष्णसे आकाशनाथीने कहा, कि-इस देवता और ब्राह्मणों
 के कटकके आप चक्रसे शान्त करदीजिये ॥ ५६ ॥ उस समय
 विन्वोदकेश्वर देव भगवान्ने कहा, कि-हे महाबल! तुम महान् धर्म
 और बड़े भारी यशको पाओ ॥ ६० ॥ तब संसारके स्वामी
 सज्जनोंकी गति श्रीकृष्णने (महादेवको) प्रणाम कर, तथास्तु
 कहनेके उपरान्त दैत्यकुलके यमराज सुदर्शन चक्रको छोड़ा ६१
 नारायणकी भुजाओंसे छूटे हुए सूर्यमंडलकी समान तेजस्वी उस
 चक्रने निकुम्भके श्रेष्ठ कुण्डलों वाले मस्तकको काट डाला ६२
 जैसे मेघसे गत्त हुआ मयूर पर्वतके शिखरसे पृथ्वी पर गिरपड़ता
 है, इसी प्रकार प्रदीप्त कुण्डलों वाला उसका शिर पृथिवीमें गिर
 पड़ा ॥ ६३ ॥ हे नरव्याघ्र ! जगत्को त्रास देने वाले विभु विन्वोद-
 केश्वर निकुम्भके मारे जाने पर सन्तुष्ट हुए ॥ ६४ ॥ उस समय
 इन्द्रने अरिनाशन श्रीकृष्णके ऊपर आकाशमेंसे पुष्पोंकी वर्षाकी
 देवदुन्दुभियों वज्रने लगी ॥ ६५ ॥ उस समय सारा जगत्

दैत्यकन्याश्च भगवान् यदुभ्यः शतशो ददौ ॥६६॥ क्षत्रियाणां
 च भगवान् सान्त्वयित्वा पुनः पुनः । रत्नानि च विचित्राणि
 वासांसि गवराणि च ॥ ६७ ॥ रथानां वाजियुक्तानां पट्सह-
 साणि केशवः । अददत् पाण्डवेभ्यश्च गीतात्मा गदपूर्वजः ६८
 तदेव चाथ मनरं पट्पुरं पुरवर्धनः । द्विजाय ब्रह्मदत्ताय ददौ
 तार्क्ष्यवरध्वजः ॥६९॥ सत्रे समाप्ते च तदा शंखचक्रगदाधरः ।
 विसर्जयित्वा तत् क्षत्रं पाण्डवांश्च महाबलः ॥७०॥ विज्वोदके-
 ररस्याथ समाजगकरोत् प्रभुः । मांसरूपसमाकीर्णं बहुन्नं
 व्यञ्जनाकुलम् ॥ ७१ ॥ नियुद्धकुलशान् मल्लान् देवो मल्ल-
 गियस्तदा । योधयित्वा ददौ भूरि वित्तं वस्त्राणि चात्मवान् ७२
 गातापितृभ्यां सहितो यदुभिश्च महाबलः । अभिवाद्य ब्रह्मदत्तं
 ययौ द्वारवतीं पुरीम् ॥ ७३ ॥ स विवेश पुरीं रम्यां हृष्टपुष्ट-

आनन्दमें भर गया और मुनि तो परमप्रसन्न हुए; भगवान् ने भी
 उस समय सैंकड़ों दैत्यकन्याएँ यादवोंको देदीं ॥ ६६ ॥ और
 क्षत्रियोंको भी ढाढ़स देकर भगवान् ने विचित्र रत्न और श्रेष्ठ
 वस्त्र दिये ॥ ६७ ॥ उस समय प्रसन्नतामें भरे हुए गदके बड़े भाई
 श्रीकृष्णने पाण्डवोंको घोड़े जुते हुए छः हजार रथ दिये ६८
 और गरुड़गीकी श्रेष्ठ ध्वजाको धारण करने वाले पुरवर्धन
 श्रीकृष्णने पट्पुर नामक नगर ब्रह्मदत्त ब्राह्मणको देदिया ६९
 यज्ञके समाप्त होने पर शंख चक्र और गदाको धारण करने वाले
 महाबली गभु श्रीकृष्णने क्षत्रियोंको और पाण्डवोंको विदा करने
 के अनन्तर विज्वोदकेश्वरदेवका उत्सव किया, उसमें अनेक
 प्रकारके मांस और बहुतसे व्यञ्जन बनाए गए थे ॥ ७०-७१ ॥
 तदनन्तर मल्लविद्यामिय आत्मवान् श्रीकृष्णने कुरतीमें चतुर
 मल्लोंकी कुरती करवा कर उनकी बहुतसा धन और वस्त्र
 दिए ॥ ७२ ॥ तदनन्तर महाबली श्रीकृष्ण ब्रह्मदत्तको गणागकर

जन.कुलम् । पुष्पचित्रगथां वीरों वन्द्यमानो नरैः पथि ॥ ७४ ॥
 इमं यः पद्पुरवधं विजयं चक्रपाणिनः । शृणुयाद्वा पठेद्वापि युद्धे
 जयमवाप्नुयात् ॥ ७५ ॥ अपुत्रो लभते पुत्रगधनो लभते धनम् ।
 व्याधितो मुच्यते रोगी वदध्वाप्यथ वन्धनात् ॥ ७६ ॥ इदं पुंस-
 वनं प्रोक्तं गर्भाधानं च भारत । श्राद्धेषु पठितं सम्यगक्षयकरणं
 स्मृतम् ॥ ७७ ॥ इदमपरवरस्य भारते पथितवलस्य जयं महा-
 त्मानः । सततगिदं हि यः पठेन्नरः सुगतिमिती व्रजते गतञ्जरः ७८
 मणिकनकविचित्रपाणिपादो निरतिशयार्कगुणोऽरिहादिनाथः ।
 चतुर्दशिशयश्चतुर्विधास्मा जयति जगत्पुरुषः सहस्रनामा ॥ ७९ ॥

अपने गाता पिताके साथ द्वारकानगरीको चल दिये ॥ ७३ ॥
 जिस समय वीर श्रीकृष्ण हृष्टपुष्ट मनुष्योंसे भरी हुई नगरीमें घुस
 ने लगे उस समय मार्ग मनुष्य उनके ऊपर विचित्र.पुष्प (वरसा
 कर) उनको प्रणाम करने लगे ॥ ७४ ॥ जोपुरुष इस पद्पुरवध
 को और चक्रपाणि श्रीकृष्णके विजयवृत्तान्तको सुनता है वा
 पढ़ता है वह युद्धमें विजय पाता है ॥ ७५ ॥ पुत्ररहित पुत्र पाता
 है, धनहीन धन पाता है व्याधिग्रस्त रोगी रोगसे छूट जाता है
 और वंधनमें पड़ा हुआ बन्धनसे छूट जाता है ॥ ७६ ॥ यह कथा
 पुंसवन और गर्भाधान है अर्थात् इसको सुननेसे पुत्रवा गर्भ रहता
 है और श्राद्धों पढ़ने पर यह (श्राद्धवे) अक्षय करने श्राद्ध वाला
 प.श है ॥ ७७ ॥ जो मनुष्य भारतमें प्रसिद्ध बल वाले श्रेष्ठदेवता
 महोत्मा कृष्णके इस चरित्रवा सर्वदा पाठ करता है वह यहाँसे
 चलने पर निश्चिन्त होकर सुगति पाता है ७८ सुवर्ण और मणियों
 की समान विचित्र चरण और हस्तवाले सूर्यके गुण (तेज)
 को अतिशय करके धारण करनेवाले शत्रुनाशक, आदिनाथ,
 चारों समुद्रोंमें शयन करने वाले, चार प्रकारकी मूर्ति वाले और
 जिनके सहस्र नाम हैं ऐसे जगत्पुरुषकी जय हो ७९ ॥ ८५ ॥

जनमेजय उवाच । श्रुतोऽयं पट्पूरवधो रम्यो मुनिवरोत्तम ।
पुरोक्तमन्धकवधं वैशम्पायन वीर्तय ॥१॥ भानुमत्याश्च हरणं
निकुम्भस्य वधं तथा । प्रवृद्धि वदतां श्रेष्ठ परं कौतूहलं हि मे २
वैशम्पायन उवाच । दितिर्हतेषु पुत्रेषु विष्णुना प्रविष्णुना ।
तपसाराधयामास मारीचं कश्यपं पुरा ॥३॥ तपसा कालयुक्तेन
तथा शुश्रूषया मुनेः । आनुकूल्येन च तथा गाधुर्गेण च भारत ४
परितुष्टः कश्यपस्तु तामुवाच तपोधनः । परितुष्टोऽस्मि ते भद्रे
वरं वरय सुव्रते ॥ ५ ॥ दितिरुवाच । हतपुत्रारिभ्य भगवन् देवै-
र्धर्मभृतां वर । अवध्यं पुत्रमिच्छामि देवैरपितविक्रमम् ॥ ६ ॥
कश्यप उवाच । अवध्यस्ते सुतो देवि दाज्ञायणि भवेदिति ।

जनमेजयने कहा; कि-हे मुनिवरोत्तम ! यह रमणीय पट्पूर-
वध सुन लिया, अब हे वैशंपायनजी ! आप पहिले कहे हुए
अन्धकवधका वृत्तान्त सुनाइये ॥ १ ॥ आप भानुमतीका हरण
और (भानुमतीके हरणके समय किष्का गया) निकुम्भका वध
भी सुनाइये, क्यों कि-हे सज्जन ! मुझै इस बातको सुननेके
लिए बड़ा कौतूहल शेरहा है ॥२॥ वैशम्पायनजीने कहा; कि-
प्रभावशाली विष्णुने जब दितिके पुत्रोंको मार डाला, तब दितिने
मारीचपुत्र कश्यपकी तपके द्वारा आराधना की थी । ३ । तपो-
धन कश्यपमुनि उसके समयोचित तपसे, उसकी सेवासे उसके
अनुकूल रहनेसे और उसकी मधुरतासे संतुष्ट हो कर उससे कहने
लागे; कि-हे भद्रे ! मैं तुझसे सन्तुष्ट हूँ हे सुव्रते ! अब तू वर
मांग ले ॥ ४ ॥ ५ ॥ दितिने कहा; कि-हे धर्म धारियोंमे श्रेष्ठ
भगवन् ! देवताओंके कारण मैं निपूनी हो गई हूँ अतः मैं देव-
ताओंसे अवध्य अग्नि पराक्रमी पुत्रको चाहती हूँ ॥६॥ कश्य-
पजीने कहा; कि-हे कणललोचने दाज्ञायणि देवि ! तुम्हारा पुत्र
देवदेव ऋके अनिरिक्त और (मव) देवताओंसे अवध्य होगा,

देवानां संशयो नात्र कश्चित् कगललोचने ॥ ७ ॥ देवदेवमृते
 रुद्रं तस्य न प्रभवाम्यहम् । आत्मा ततस्ते पुत्रेण रक्षितव्यो हि
 सर्वथा ॥ ८ ॥ अन्बालभत तां देवीं करग्रपः सत्यवागध । अंगुल्यो-
 दरदेशे तु सा पुत्रं सुपुत्रे ततः ॥ ९ ॥ सहस्रबाहुं कौरव्य सहस्र-
 शिरसं तथा । द्विसहस्रेक्षणं चैव तावच्चरणमेव च ॥ १० ॥ स
 ब्रजत्यन्वद्यस्मादनन्धोऽपि हि भारत । तमन्वकोऽयं नाम्नेति
 मोञ्जुस्तत्र निवासिनः ॥ ११ ॥ अवध्योऽस्मीति लोकान् स सर्वान्
 वाधति भारत । हरत्पपि च रत्नानि सर्वाण्यत्पवलाश्रयात् १२
 वासयत्यात्मवीर्येण निशुद्याप्सरसां गणान् । स वेश्मन्युजितो-
 त्यर्थं सर्वलोकभयंकरः ॥ १३ ॥ परदारापहरणं पररत्नविलोप-
 नम् । चकार सततं मोहादन्धकः पापनिश्चयः ॥ १४ ॥ त्रैलोक्य-

इसमें तुम क्रुद्ध सन्देह न समझो, क्योंकि रुद्रके ऊपर मेरी शक्ति
 नहीं चलती है, इस लिए तुम्हारा पुत्र उनसे अपने आपेको
 सब प्रकारसे बचाएँ रहें ॥ ७ ॥ ८ ॥ तदनन्तर सन्धी बाणी
 बोलने वाले कश्यप उस देवीके पास गए, हे कौरव्य ! तब उस
 ने अपनी अपनी अंगुलियों उदर (हथेली) में से सहस्र भुजा
 वाले, सहस्र शिर वाले और दो सहस्र नेत्र और इतने ही चरणों
 वाले पुत्रको उत्पन्न किया ॥ ९ ॥ १० ॥ हे भरतवंशी राजन् !
 वह अंग न होने पर भी अंधेही समान चलता था, इससे तदों
 के रहने वाले उसे अंधक नामसे पुकारते थे ॥ ११ ॥ हे भारत !
 वह दैत्य में सब लोकोंसे अवध्य हूँ, यह समझकर सबको पीड़ा
 देने लगा और अपनी आत्मके बलके आश्रयसे सम्पूर्ण रत्नों
 का हरण करने लगा ॥ १२ ॥ वह अति बली सब लोकोंको
 भय देने वाला राजस अपने वीर्यसे अप्सराओंको पकड़ कर
 अपने घरमें डालने लगा ॥ १३ ॥ और पापी विचार वाला
 अन्धक मोहके बशमें ही सदा दूसरेके रत्न और दूसरोंकी स्त्रियों

विजयं कर्तुमुद्यतः स तु भारत । सहायैरसुरैः सार्धं बहुभिः सर्व-
 धर्षिभिः ॥ १५ ॥ तच्छ्रुत्वा भगव उद्वक्रः कश्यपं पितरं ब्रवीत् ।
 अन्धकेनेदमारब्धगीदृशं मुनिसत्तम ॥ १६ ॥ आज्ञापय विभो
 कार्यमस्माकं सगनन्तरम् । यवीयसः कथं नाम सोढव्यं स्यान्मुने
 मया ॥ १७ ॥ इष्टपुत्रे प्रहर्तव्यं कथं नाम मया विभो । इहात्र
 भवती कुर्यान्मन्युं मयि हते सुते ॥ १८ ॥ देवेन्द्रवचनं श्रुत्वा कश्य-
 पोथात्रवीन्मुनिः । वारयिष्यामि देवेन्द्र सर्वथा भद्रमस्तु ते । १९ ।
 अन्धकं वारयागास दिव्या सह तु कश्यपः । त्रैलोक्यविजया-
 द्वीरं कृच्छ्रकृच्छ्रेण भारत ॥ २० ॥ वारितोऽपि स दुष्टात्मा बाध-
 त्येव दिव्यौकसः । तेस्तैरुपायैर्दुष्टात्मा प्रमथ्य च तथाऽमरान् २१

को द्वीनने लगा ॥ १४ ॥ हे भारत ! वह सबको दवाने वाले
 बहुतसे सहायक असुरोंको साथमें लेकर त्रिलोकीका विजय करने
 के लिए उद्यत होगया ॥ १५ ॥ इस बातको सुन कर भगवान्
 इन्द्रने अपने पिता कश्यपसे कहा; कि-हे मुनिसत्तम ! अन्धक
 ऐसी (कामूत) करना आरंभ कर दी है ॥ १६ ॥ हे विभो !
 अब हमें जो कार्य करना उचित हो वह बताइये, हे मुने ! मैं छोटे
 भाईके इस दुष्टको किस प्रकार सहूँ ॥ १७ ॥ हे विभो ! मैं
 इसने ऊपर कैसे प्रहार करूँ, क्योंकि-जब मैं आपकी पूज्या
 (दिति) के प्रिय पुत्रको मार डालूँगा, तो वह पुत्रके मारे जाने
 से मुझ पर क्रोध करेगी ॥ १८ ॥ देवेन्द्रके वचनको सुन कर
 कश्यपमुनिने कहा; कि-हे देवेन्द्र ! मैं उसे सब प्रकारसे रोऊँगा,
 तेरा वन्याण हो । १९ । हे भरतवंशी राजन् ! तदनन्तर कश्यप
 और दितिने वीर अंधकको त्रिलोकीका विजय करनेने लिए बड़ी
 कठिनतासे रोक्या ॥ २० ॥ वह दुष्टात्मा रोकने पर भी देवताओं
 को पीड़ा देता ही रहा, उस दुष्टात्मासे प्रत्येक उपायसे देव-
 ताओंको दिक कर (नन्दन) वनके वगीचे और वृत्तोंको उजा-

वभञ्ज कानने वृत्तानुग्रानानि च दुर्मतिः । उच्चैश्रवःसुतानश्वान्
 वलादप्यनयद्विवः ॥ २२ ॥ नागान् दिशागजसुतान् दिव्यानपि
 च भारत । वलाद्धरति देवानां पश्यतां वरदर्पितः ॥ २३ ॥ देवा-
 नाप्ययन्ते तु ये यज्ञैस्तपसा तथा । तेषां चकार विष्णुं स दुष्टात्मा
 देवसंन्दः ॥ २४ ॥ नेजुर्यज्ञैस्त्रयो वर्यास्तेषुश्च न तपांस्यपि ।
 अन्धकस्य भयाद्राजन् यज्ञविष्णानि कुर्षतः ॥ २५ ॥ तस्येच्छया
 वाति वायुरादित्यश्च तपत्युत । चन्द्रमा च सनत्त्रो दृश्यते तैव
 वा पुनः ॥ २६ ॥ न व्रजन्ति विमानानि विहायसि भयात् प्रभो ।
 अन्धकस्यातिघोरस्य बलदम्भस्य दुर्मतेः ॥ २७ ॥ निरोंकारवपट्-
 कारं जगद्बीर तथाभवत् । अन्धकस्यातिघोरस्य भयात् कुरुकुलो-
 द्वह ॥ २८ ॥ कुरुंस्तथोत्तरान् पापो द्रावयामास भारत । भद्रा-

द्वना आरभ कर दिया, वह स्वर्गसे उच्चैश्रवाः घोड़ोंके पुत्रोंके
 भी बलपूर्वक ले आया ॥ २१ ॥ २२ ॥ वह बरके काष्ण घण्ट
 में भरा हुआ दैत्य हे भारत ! देवतओंके सागनेसे ही दिग्गजों
 के पुत्र दिव्य हाथियोंके बलपूर्वक छीन लाता था ॥ २३ ॥ जो
 व्यक्ति यज्ञ और तपके द्वारा देवताओंके पुष्ट करते थे, वह
 दुष्टात्मा देवकण्टक उनके काममें विघ्न डालने लगा ॥ २४ ॥
 हे राजन् ! यज्ञमें विघ्न डालने वाले अंधकके भयसे मनुष्योंने
 यज्ञोंसे पूजन करना और तप करना भी छोड़ दिया ॥ २५ ॥
 उसकी इच्छासे ही वायु चलने लगा सूर्य भी उसकी इच्छासे ही
 तपने लगा और सनत्त्रो सहित चन्द्रमा उसकी इच्छासे ही दीखता
 और नहीं दीखता था ॥ २६ ॥ हे प्रभो ! उस समय बलके
 कारण उद्धत दुर्मति अंधकके भयसे आकाशमें विमान नहीं
 चलते थे ॥ २७ ॥ हे कुरुकुलोद्वह ! हे वीर ! अतिभंकर अंधक
 के भयसे जगत् ओंकार और वपट्कार रहित हो गया २८ हे
 भरतवंशी राजन् ! उस पापीने कुरु भद्राश्व और केतुपालोंको

स्वान् वेतुपालांश्च जम्बुद्वीपास्तथैव च ॥ २६ ॥ मानयन्ति च
 तं देवा दानवाश्च दुरासदाः । भूतानि च तथाऽन्यानि सगर्था-
 न्यपि सर्वथा ॥ ३० ॥ ऋषयो बध्मपानास्तु समेता ब्रह्मवादिनः ।
 अचिन्तयन्नन्यकस्य वधं धर्मभृताम्बर ॥ ३१ ॥ तेषां बृहस्पति-
 र्मन्त्रे धीपानिदमपात्रवीत् । नास्य रुद्रादृते मृत्युर्विद्यते च कथं-
 चन ॥ ३२ ॥ तथा परे दीयमाने कश्यपेनापि शब्दितः । नाहं
 रुद्रात् परित्रातुं शक्त इत्येव धीमतः ॥ ३३ ॥ तमुपायं चिन्तयामः
 शर्वो येन सनातनः । जानीयात् सर्वभूतानि पीडयमानानि
 शंकरः ॥ ३४ ॥ विदितार्थो हि भगवानवश्यं जगतः प्रभुः ।
 अश्रुपमार्जनं देवः कश्चिष्यति सतां गतिः ॥ ३५ ॥ व्रतं हि देव-
 देवस्य भवस्य जगतो गुरोः । सन्तोऽसद्भ्यो रक्षितव्या ब्राह्म-
 णास्तु विशेषतः ॥ ३६ ॥ ते वयं नारदं सर्वे प्रयागः शरणं

भगवाना आरम्भ कर दिदा ॥२६॥ देवता और दुरासद दानव
 तथा सब प्रकारसे समर्थ माणी भी उसका मान करते थे ॥३०॥
 हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ! तदनन्तर पितृते हुए ब्रह्मवादी ऋषि एरु-
 त्रित होकर अन्धकके बधका विचार करने लगे ॥ ३१ ॥ उनके
 बीचमें बुद्धिमान् बृहस्पतिने कहा, कि-इसकी मृत्यु रुद्रके अतिरिक्त
 और किसीसे नहीं (लिखी) है ॥ ३२ ॥ क्यों कि-कश्यपने भी
 वर देते समय यह शब्द कहा था, कि-बुद्धिमान् शिवसे इसको
 बचानेकी युक्तमें शक्ति नहीं है ३३ अब हमें वह उपाय करना
 चाहिये, जिससे शंकर सब भूतोंको पीड़ा पाते हुए जानें ३४
 जगत्के प्रभु भगवान् शंकरने जब सब बातें विदित होंगी, तब
 वह सज्जनोंकी गति सबके आँसुओंको अवश्य ही पूँछेगे ॥ ३५ ॥
 असज्जनोंसे सज्जनोंकी रक्षा करना और ब्राह्मणोंकी विशेषतः
 रक्षा करना जगत्के गुरु देवदेव शंकरका व्रत है, ३६ इस लिए
 अब हम सब ब्राह्मण नारदजीकी शरण लेंगे हैं, क्योंकि—वह

द्विनम् । उपायं वेत्स्यते तत्र वगस्यो हि भवस्य सः ॥ ३७ ॥
 बृहस्पतिवचः श्रुत्वा सर्वेऽप्यथ तपोधनाः । तावद्ददशुराकाशे प्राप्तं
 देवर्षिसत्तमम् ॥ ३८ ॥ पूजयित्वा यथान्यायं सत्कृत्य विधि-
 बन्धुनिम् । देवा ऊचुः । देवर्षे भगवन् साधो कैलासं व्रज सत्व-
 रम् ॥ ३९ ॥ विष्णुगर्हसे देवमन्धकस्य वधे हरम् । त्राणार्थं
 न्यरदं प्रोचुस्तांस्तथेति स चोक्तवान् ॥ ४० ॥ ऋषिष्वथ मया-
 तेषु तत्कार्यं नारदो मुनिः । विचार्य मनसा विद्वानिति कार्यं स
 दृष्टवान् ॥ ४१ ॥ स देवदेवं भगवान् द्रष्टुं मुनिरथाययौ । मन्दार-
 वनमध्यस्थो यत्र नित्यो वृषध्वजः ॥ ४२ ॥ स तत्र रजनीमेका-
 मुपित्वा मुनिसत्तमः । मन्दाराणां वने रम्ये दयितः शूलपाणिना
 आजगाम पुनः स्वर्गं लब्ध्वाऽनुत्तमं वृषध्वजात् । मन्दारपुष्पैः

महात्मा भवके वगस्य (हय उग्र) है अतः यह (उनके दर्शनका)
 उपाय जानते होंगे ॥ ३७ ॥ बृहस्पतिके वचनको सुन कर सब
 तपो गनोंने आकाशकी गोर देखा तो उन्होंने आकाशमेंसे नारदजी
 को आते हुए देखा ॥ ३८ ॥ तदनन्तर उन्होंने शास्त्रोक्तरीतिसे
 उन मुनिकी पूजाकी, फिर देवताओंने कहा, कि—हे साधो !
 हे देवर्षे ! आप शीघ्रतासे कैलासको जाइये ॥ ३९ ॥ और तहाँ
 जाकर भगवान् शिवसे अंधकका वध करनेके लिए कहिये, देवताओं
 ने नारदसे इस प्रकार रक्षा करनेके लिए कहा, तब उन्होंने ऐसा
 ही (करुणा) कहा ॥ ४० ॥ ऋषियोंके जाने पर नारद मुनिने
 अपने मनमें विचारा, कि—यह कार्य इस प्रकार करना चाहिये
 इस बातका विचार करके वह मुनि जहाँ पर वृषध्वज सदा रहते
 हैं उस वनमें देवदेव भगवान् शंकरको देखनेके लिए चले ४१ ४२
 शिवजीके गिय वह मुनिसत्तम रमणीय मन्दर वनमें एक रात्रि
 रह कर, हे भारत ! मन्दारके पुष्पोंसे भली भाँति बनाई हुई
 मालाको वाँध वृषध्वज शंकरसे आज्ञा ले फिर स्वर्गमें आ

श्वान् वेतुगालांश्च जम्बुद्वीपास्तथैव च ॥ २६ ॥ मानयन्ति च
 तं देवा दानवारच दुरासदाः । भूतानि च तथाऽन्यानि सगर्था-
 न्यपि सर्वथा ॥ ३० ॥ अपयो बध्गमानास्तु समेता ब्रह्मवादिनः ।
 अचिन्तयन्न्वनकस्य वधं धर्मभृताम्बर ॥ ३१ ॥ तेषां बृहस्पति-
 र्मन्थे धीपानिदगभात्रवीत् । नास्य रुद्रादृते मृत्युर्विद्यते च कथं-
 चन ॥ ३२ ॥ तथा परे दीपमाने कश्यपेनापि शब्दितः । नाहं
 रुद्रात् परित्रातुं शक्त इत्येव धीमतः ॥ ३३ ॥ तद्युपायं चिन्तयामः
 शर्वो येन सनातनः । जानीयात् सर्वभूतानि पीडयमानानि
 शंकरः ॥ ३४ ॥ विदितार्थो हि भगवानवश्यं जगतः प्रभुः ।
 अश्रुमगार्जनं देवः कश्चिप्यति सतां गतिः ॥ ३५ ॥ व्रतं हि देव-
 देवस्य भवस्य जगतो गुरोः । सन्तोऽसद्भ्यो रक्षितव्या ब्राह्म-
 णास्तु विशेषतः ॥ ३६ ॥ ते वयं नारदं सर्वे प्रयागः शरणं

भगवान् आरम्भ कर दिदा ॥२६॥ देवता और दुरासद दानव
 तथा सब प्रकारसे समर्थ प्राणी भी उसका मान करते थे ॥३०॥
 हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ! तदनन्तर पितले हुए ब्रह्मवादी अपि एक-
 त्रित होकर अन्धरुके बधका विचार करने लगे ॥ ३१ ॥ उनके
 बीचमें बुद्धिमान् बृहस्पतिने कहा, कि-इसकी मृत्यु रुद्रके अतिरिक्त
 और किसीसे नहीं (लिखी) है ॥ ३२ ॥ क्यों कि-कश्यपने भी
 वर देते समय यह शब्द कहा था, कि-बुद्धिमान् शिवसे इसको
 बनानेकी श्रुतिमें शक्ति नहीं है ३३ अथ हमें वह उपाय करना
 चाहिये, जिससे शंकर सब भूतोंको पीड़ा पाते हुए जानें ३४
 जगत्के प्रभु भगवान् शंकरको जब सब बातें विदित होंगी, तब
 वह सज्जनोंकी गति सबके आँसुओंको अवश्य ही पूँछेगे ॥ ३५ ॥
 असज्जनोंसे सज्जनोंकी रक्षा करना और ब्राह्मणोंकी विशेषतः
 रक्षा करना जगत्के एक देवदेव शंकरका व्रत है, ३६ इस लिए
 अब हम सब ब्राह्मण नारदजीकी शरण लेने हैं, क्योंकि-वह

द्विजम् । उपायं वेत्स्यते तत्र वपस्यो हि भवस्य सः ॥ ३७ ॥
 वृहस्पतिवचः श्रुत्वा सर्वेष्वथ तपोधनाः । तावददृशुराकाशे प्रा-
 देवर्षिसत्तमम् ॥ ३८ ॥ पूजयित्वा यथान्यायं सत्कृत्य विधि-
 बन्धुनिम् । देवा ऊचुः । देवर्षे भगवन् साधो कैलासं व्रज सत्त्व-
 रम् ॥ ३९ ॥ विष्णुपुत्रर्हसे देवमन्धकस्य वधे हरम् । त्राणार्थं
 नारदं मोक्षुर्तास्तथेति स चोक्तवान् ॥ ४० ॥ ऋषिष्वथ प्रपा-
 तेषु तत्कार्यं नारदो मुनिः । विचार्य मनसा विद्वानिति कार्यं स
 दृष्टवान् ॥ ४१ ॥ स देवदेवं भगवान् द्रष्टुं मुनिरथाययौ । मन्दार-
 वनमध्यस्थो यत्र नित्यो वृषध्वजः ॥ ४२ ॥ स तत्र रजनीमेका-
 मुपित्वा मुनिसत्तमः । मन्दाराणां वने रम्ये दपितः शूलपाणिनः
 आजगाम पुनः स्वर्गं लब्ध्वाऽनुज्ञां वृषध्वजात् । मन्दारपुष्पैः

महात्मा भवते वपस्य (हग उग्र) हैं अतः यह (उनके दर्शनका)
 उपाय जानते होंगे ॥ ३७ ॥ वृहस्पतिके वचनको सुन कर सब
 तपो-गनोंने आकाशकी ओर देखा तो उन्होंने आकाशमेंसे नारदजी
 को आते हुए देखा ॥ ३८ ॥ तदनन्तर उन्होंने शास्त्रोक्तरीतिसे
 उन मुनिकी पूजाकी, फिर देवताओंने कहा, कि-हे साधो !
 हे देवर्षे ! आप शीघ्रतासे कैलासको जाइये ॥ ३९ ॥ और तहाँ
 जाकर भगवान् शिवसे अंधकका वध करनेके लिए कहिये, देवताओं
 ने नारदसे इस प्रकार रक्षा करनेके लिए कहा, तब उन्होंने ऐसा
 ही (करूँगा) कहा ॥ ४० ॥ ऋषियोंके जाने पर नारद मुनिने
 अपने मनमें विचारा, कि-यह कार्य इस प्रकार करना चाहिये
 इस बातका विचार करके वह मुनि जहाँ पर वृषभध्वज सदा रहते
 हैं उस वनमें देवदेव भगवान् शंकरको देखनेके लिए चले ४१-४२
 शिवजीके नियम वह मुनिसत्तम रमणीय मन्दर वनमें एक रात्रि
 रह कर, हे भारत ! मन्दारके पुष्पोंसे भली भाँति बनाई हुई
 मालाको बाँध वृषभध्वज शंकरसे आज्ञा ले फिर स्वर्गमें आ

सुकृतां मालामावध्य भारत ॥ ४४ ॥ अथितां संविशेषान्तां सर्व-
गन्धोत्तमोत्तमाम् । सन्तानमाल्यदामं च तैरेव कुसुमैः कृतम् ४५
तच्च कण्ठे सपासज्य महागंधं नराधिपः । आययावन्धको यत्र
दुरात्मा बलदपितः ॥ ४६ ॥ अन्धकस्त्वथ तं दृष्ट्वा गन्धमाप्राप्ये
चोत्तमम् । सन्तानकानां स्रङ्मालां महागन्धं गद्गामुने ॥ ४७ ॥
कुत्रायं पुष्पजातिर्वा कगनीया तपोधन । गन्धान् वर्णाञ्छुभा-
स्तान् हि भोः पुरुषति मुहुर्मुहुः । स्वर्गे सन्तानकुसमान्यतिवर्तति
सर्वथा ॥ ४८ ॥ कः मधुस्तस्य वृत्तस्य शक्यं वा नयितुं
मुने । आचक्ष्व यद्यनुग्राह्या वयं ते देवतातिथे ॥ ४९ ॥
तमुवाच मुनिश्रेष्ठः महसन्निव भारत । आदाय दक्षिणे हस्ते मह-
तस्तपसो निधिः ॥ ५० ॥ मन्दरे पर्वतश्रेष्ठे वीरकामगमं वनम् ।

गण ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ हे राजन् ! जहाँ पर दुरात्मा बलदपित अंधक
रहता था, तहाँ वह अन्त तक विशेषरूपसे सूँधी हुई, सब श्रेष्ठ
गंधोंमें भी उत्तम सन्तानमाल्यकी डोरी वाली और सन्तान वृत्त
के फूलोंसे बनाई हुई महागंधवती मालाको कण्ठमें डाल कर
पहुँचे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ अंधकने उनको देख कर और महागंध-
वती सन्तानकोंकी मालाके गंधको सूँघ कर (कहा; कि-)
हे गद्गामुने ! हे तपोधन ! ऐसे कगनीय पुष्प कहाँ पर हैं, ओ हो !
इनकी गंध और वर्ण तो बार बार पुष्ट सा कर रहा है और यह
स्वर्गके सन्तान-वृत्तोंसे भी सब प्रकारसे बड़े चढ़े हैं । ४७ ॥ ४८ ॥
हे मुने ! इन वृत्तोंका मधु कौन है और वह (वृत्त) यहाँ पर लाया
जासकना है, अथवा नहीं ? हे देवतातिथे ! यदि आप हग पर
अनुग्रह करना चाहते हो तो हमसे यह जान कहिये ॥ ४९ ॥ हे
भरतवंशी राजन् ! उस समय तपके निधि मुनिश्रेष्ठ नारदने
(उसके हाथको अपने) दाहिने हाथसे पकड़ मुस्करा कर उससे
कहा, कि- ॥ ५० ॥ हे वीर ! पर्वतश्रेष्ठ मन्दरान्त पर-इच्छा-

तत्र चैवं विश्वं पुष्पं भोः सृष्टिः शूलपाणिनः ॥५१॥ न तु तत्र
 वनं कश्चिदच्छन्देन महात्मनः । प्रवेशं लभते तद्धि रक्षन्ति गन्-
 दारोत्तमाः ॥ ५२ ॥ नानामहरणा घोरा नानावेपा दुरासदाः ।
 अवध्याः सर्वभूतानां महादेवाभिरक्षिताः ॥ ५३ ॥ नित्यं प्रकीडते
 तत्र सोमः समचरो हरः । मन्दारद्रुगखण्डेषु सर्वात्मा सर्व-
 भावनः ॥ ५४ ॥ तपोविशेषैराराध्य हरं त्रिभुवनेश्वरम् । शक्यं
 गन्दारपुष्पाणि प्राप्तुं कश्यपवंशज ॥५५॥ स्त्रीरत्नमणिरत्नानि
 यानि चान्यानि चाप्यथ । काञ्चिताभि फलानि स्म ते द्रुगा हर-
 चञ्चलभाः ॥५६॥ न तत्र सूर्यः सोमोऽथ तपस्यतुलविक्रमः । स्वर्ग-
 प्रभं तद्वनं तद्गो दुःखविचर्जितम् ॥५७॥ तत्र गन्धान् स्रवत्यन्ये
 नीराण्यन्ये महाद्रुगाः । वासांसि विविधान्यन्ये सुगन्धीनि महा-

चारी वन है, हे दैत्य ! तहाँ ऐसे पुष्प होते हैं और यह शूलपाणि
 की रचना है अर्थात् वह इन पुष्पोंके स्वामी है ॥५१॥ उन महा-
 त्माकी इच्छाके बिना तहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्यों-
 कि-श्रेष्ठ २ गण उस वनकी रक्षा करते रहते हैं ॥ ५२ ॥ उनके
 पास अनेक प्रकारके आयुध हैं, उनके अनेक प्रकारके भयंकर वेप
 हैं, वह महादेवसे रक्षित होनेके कारण सब माणियोंसे अवध्य
 हैं ॥ ५३ ॥ सर्वात्मा और सर्वपूजित हर उगाके साथ और
 अपने गणोंके साथ तहाँ मन्दारके वृक्षके खण्डोंमें सर्वदा क्रीड़ा
 करते रहते हैं ॥५४॥ हे कश्यपके वंशज ! त्रिभुवनके स्वामी हर
 की तपसे उपासना करने पर मन्दारके पुष्प मिल सकते हैं ५५
 वे शिवके प्यारे वृक्ष मनोवाञ्छित स्त्रीरत्न और मणि तथा रत्नों
 को पूर्ण करते हैं ॥ ५६ ॥ तहाँ अतुलपराक्रमी चन्द्रमा और सूर्य
 भी नहीं घुस सकते वह दुःखरहित वन स्वर्गमग्न है ५७ हे महा-
 वल ! तहाँ पर कोई वृक्ष सुगन्धियोंको बहाते रहते हैं, कोई जल
 बहाते रहते हैं और बहुतसे वृक्ष सुगन्धित वस्त्रोंको देते रहते हैं ५८

सुकृतां गालामावध्य भारत ॥ ४४ ॥ ग्रथितां सविशेषान्तां सर्व-
गन्धोत्तमोत्तमाम् । सन्तानमाल्यदामं च तैरेव कुसुमैः कृतम् ४५
तच्च कण्ठे सगासृज्य महागंधं नराधिपः । आययावन्धको यत्र
दुरात्मा बलदपितः ॥ ४६ ॥ अन्यकस्त्वथ तं दृष्ट्वा गन्धमाघ्राय
नोत्तमम् । सन्तानकानां स्रङ्मालां महागन्धां गहामुने ॥ ४७ ॥
कुत्रायं पुष्पजातिर्वा कपनीया तपोधन । गन्धान् वर्णाञ्छुभा-
स्तान् हि भोः पुष्यति मुहुर्मुहुः । स्वर्गे सन्तानकुसमान्यतिवर्तति
सर्वथा ॥ ४८ ॥ कः प्रभुस्तस्य वृत्तस्य शक्यं वा नयितुं
मुने । आनच्च यद्यनुग्राह्या वयं ते देवतातिथे ॥ ४९ ॥
तमुवाच मुनिश्रेष्ठः महसन्निव भारत । आदाय दक्षिणे हस्ते मह-
तस्तपसो निधिः ॥ ५० ॥ मन्दरे पर्वतश्रेष्ठे वीरकामगमं वनम् ।

गण ॥४३॥४४॥हे राजन् ! जहाँ पर दुरात्मा बलदपित अंधक
रहता था, तहाँ वह अन्त तक विशेषरूपसे गूँगी हुई, सब श्रेष्ठ
गंधोंमें भी उत्तम सन्तानमाल्यकी डोरी वाली और सन्तान वृत्त
के फूलोंसे बनाई हुई महागंधवती मालारो कण्ठमें डाल कर
पहुँचे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ अंधकने उनको देख कर और महागंध-
वती सन्तानकोंकी मालाके गंधको सूँघ कर (यहा; कि-)
हे गहामुने ! हे तपोधन ! ऐसे कपनीय पुष्प यहाँ पर हैं, ओ हो !
इनकी गंध और वर्ण तो बार बार पुष्ट सा कर रहा है और यह
स्वर्गके सन्तान-वृत्तोंसे भी सब प्रकारसे बड़े बड़े हैं । ४७।४८।
हे मुने ! इन वृत्तोंका प्रभु कौन है और वह (वृत्त) यहाँ पर लाया
जासकता है, अथवा नहीं ? हे देवतातिथे ! यदि आप हग पर
अनुग्रह करना चाहते हों तो हमसे यह बात कहिये ॥ ४९ ॥ हे
भरतवंशी राजन् ! उस समय तपके निधि मुनिश्रेष्ठ नारदने
(उसके हाथको अपने) दाहिने हाथसे पकड़ मुस्करा कर उससे
कहा, कि- ॥ ५० ॥ हे वीर ! पर्वतश्रेष्ठ मन्दराचल पर इच्छा-

तत्र चैवं विधं पुष्पं भोः सृष्टिः शूलपाणिनः ॥५१॥ न तु तत्र
 वनं कश्चिदच्छन्देन महात्मनः । प्रवेशं लभते तद्धि रक्षन्ति गव
 रीत्तमाः ॥ ५२ ॥ नानापहरणा घोरा नानावेपा दुरासदाः ।
 अवध्याः सर्वभूतानां महादेवाभिरक्षिताः ॥ ५३ ॥ नित्यं मन्त्रीकते
 तत्र सौगः सपवरो हरः । मन्दारद्रुमखण्डेषु सर्वात्मा सर्व-
 भावनः ॥ ५४ ॥ तपोविशेषैराराध्य हरं त्रिशुवनेश्वरम् । शम्भं
 मन्दारपुष्पाणि प्राप्तुं कश्यपवंशज ॥५५॥ स्त्रीरत्नमणिरत्नानि
 यानि चान्गानि चाप्यथ । कान्तिगानि फलानि स्म ते द्रुगा हर-
 नल्लभाः ॥५६॥ न तत्र सूर्यः सोमोऽथ तपन्यतुलविक्रमः । स्वर्ग-
 प्रभं तरुवनं तद्गो दुःखविवर्जितम् ॥५७॥ तत्र गन्धान् सवत्पन्ये
 नीराण्यन्ये महाद्रुगाः । वासांसि विविधान्यन्ये सुगन्धीनि महा-

चारी वन है, हे देव ! तहाँ ऐसे पुष्प होते हैं और यह शूलपाणि
 की रचना है अर्थात् वह इन पुष्पोंके स्वामी है ॥५१॥ उन महा-
 त्माकी इच्छाके बिना तहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्यों
 कि-श्रेष्ठ २ गण उस वनकी रक्षा करते रहते हैं ॥ ५२ ॥ उनके
 पास अनेक प्रकारके आयुध हैं, उनके अनेक प्रकारके भयंकर वेप
 है, वह महादेवसे रक्षित होनेके कारण सब प्राणियोंसे अवध्य
 हैं ॥ ५३ ॥ सर्वात्मा और सर्वपूजित हर उपाके साथ और
 अपने गणोंके साथ तहाँ मन्दारके वृक्षके खण्डोंमें सर्वदा क्रीड़ा
 करते रहते हैं ॥५४॥ हे कश्यपके वंशज ! त्रिशुवनके स्वामी हर
 की तपसे उपासना करने पर मन्दारके पुष्प मिल सकते हैं ५५
 वे शिवके प्यारे वृक्ष मनोवाञ्छित स्त्रीरत्न और मणि तथा रत्नों
 को पूर्ण करते हैं ॥ ५६ ॥ तहाँ अतुलपराकमी चन्द्रमा और सूर्य
 भी नहीं घुस सकते वह दुःखरहित वन स्वर्गप्रभ है ५७ हे महा-
 बल ! तहाँ पर कोई वृक्ष सुगन्धियोंको बढाते रहते हैं, कोई जल
 बढाते रहते हैं और बहुतसे वृक्ष सुगन्धित वस्त्रोंको देते रहते हैं ५८

वल ॥ ५८ ॥ भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च चोष्यं लोहं तथैव च ।
 तरुभ्यः स्रवते तेभ्यो विविधं मनसेप्सितम् ॥ ५९ ॥ पिपासाया
 बुभुक्षा वा ग्लानिश्चिन्तापि वाऽनघ । न मन्दारवने वीर भव-
 तीत्युपधार्यताम् ॥ ६० ॥ न ते वर्णयितुं शक्या गुणा वर्णशतै-
 रपि । गुणा ये तत्र वर्धन्ते स्वर्गाद्बहुगुणोत्तराः ॥ ६१ ॥ अतीव
 हि जपेत्सलोकान् समहेन्द्रान्न संशयः । एकाहगणि यस्तत्र वसेच्च
 दितिजोत्तम ॥ ६२ ॥ स्वर्गस्यापि हि तत्स्वर्गं सुखानामपि तत्
 सुखम् । वभूवाजगतः सर्वमिति मे धीयते मनः ॥ ६३ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि
 अन्धकवधे षडशीतिततोऽध्यायः ॥ ८६ ॥

वैशम्पायन उवाच । अन्धको नारदवचः श्रुत्वा तत्रेन भारता
 मन्दरं पर्वतं गन्तुं मनो दध्रे महासुरः ॥ १ ॥ सोसुरान् सुगहा-
 तेभाः सगानीय महाबलः । जगाम मन्दरं क्रुद्धो महादेवालयं

और उन वृत्तोंसे मनचाहा अनेक प्रकारका भक्ष्य भोज्य पेय
 (पीने योग्य) चोष्य (चूसने योग्य) और लोह (चाटने योग्य)
 पदार्थ टपकता रहता है ५९ हे निष्पाप वीर ! मन्दारवनमें प्यास
 भूख ग्लानि और चिन्ता नहीं होती है ६० तहाँ पर स्वर्गके गुण
 से भी बहुत अधिक गुण वाले जो गुण हैं उन गुणोंका सैकड़ों
 बर्षोंमें भी वर्णन नहीं किया जासकता ६१ हे दितिके उत्तमपुत्र !
 जो व्यक्ति तहाँ एक दिन भी रह जाता है वह इन्द्रसहित सब
 लोकोंको जीत सकता है ६२ वह स्वर्गका भी स्वर्ग है और सुख
 का भी सुख है, मेरे मनमें तो यह निश्चय है; कि-वह सब अज
 अर्थात् उत्पत्तिरहित है ६३ ज्ञियासीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८६ ॥

वैशम्पायनजीने कहा; कि-भरतवंशी राजन् ! महाराजस
 अंधकने नारदजीका तत्त्व-वचन सुन कर मनमें मन्दरपर्वत पर
 जानेका विचार किया ॥ १ ॥ वह महातेजस्वी और महाबली

तदा ॥ २ ॥ तं महाभ्रपतिच्छन्नं महौषधिसमाकुलम् । नाना-
सिद्धसमाकीर्णं महर्षिगणसेवियम् ॥ ३ ॥ चन्दनागुरुवृक्षादय
सरलद्रुगसंकुलम् । किन्नरोद्गीतरम्यं च बहुनागकुलाकुलम् ॥४॥
धातोद्धूतैर्वनैः फुल्लैर्नृत्यन्तमिव च क्वचित् । प्रसूतैर्धातुभिश्चित्रै-
र्विलिप्तमिव च क्वचित् ॥ ५ ॥ पक्षिस्वनैः सुमधुरैर्नदन्तमिव च
क्वचित् । हंसैः शुचिपदैः कीर्णं सम्यतद्भिरितस्ततः ॥६॥ महा-
बलैश्च महिषैश्चरद्भिर्देवनाशनैः । चन्द्राशुचिमलैः सिंहैर्भूपितं
हेमसंचयम् ॥७॥ मृगराजसमाकीर्णं मृगवृन्दनिपेवितम् । स मन्दरं
गिरिं प्राह रूपिणं बलदर्पितः ॥ वेत्सि त्वं हि यथा बभूवो वर-
दानादहं पितुः । मग चैव वशे सर्वे त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥८॥

राजस कोपमें भर राजसोंको साथ ले महादेवके निवासस्थान
मन्दराचल पर्वतको चल दिया । २। बलसे दर्पमें भरे हुए अंधक
ने महाभ्रपती समान दृके हुए, महौषधियोंसे व्याप्त, अनेक प्रकार
के सिद्धोंसे घिरे हुए, महर्षियोंसे सेवित, चन्दन और अमर
के वृक्षोंके घनी, सालके वृक्षोंसे गच्छे हुए किन्नरोंके गानोंसे रम-
णीय, बहुवसे नागोंके कुलसे आकुल, और कहीं पर वायुसे
दिलोरे लेने हुए खिले हुए वगीचोंसे युक्त और कहीं पर टाकती
हुई विचित्र धातुओंसे लिपे हुए, और कहीं पर सुमधुर पक्षियों
के शब्दसे नाद करते हुए और कहीं पर इधर उधर गिरने और
बैठते हुए पक्षि स्थानों पर बैठने वाले हंसोंसे व्याप्त और कहीं
पर दैत्य-नाशक घूमते हुए बड़े २ महिषोंसे व्याप्त, चन्द्रमाकी
किरणोंकी समान विमल सिद्धोंसे भूषित सुवर्णसंचय वाले,
मृगराज (सिंहों) से गच्छे हुए और मृगोंकी टोलियोंसे सेवित
रूपवारी मन्दराचल पर्वतसे कहा; कि-॥ ३-८ ॥ तू इस बात
को जानता ही है, कि-में अपने पिताके वरदानके कारण अब-
ध्व हूँ, सारी चराचर त्रिलोक्य मेरे वशमें हैं ॥ ६ ॥ हे पर्वत !

न मां कश्चिदिच्छत्यपि गिरे गयात् । पारिजातवनं
 चास्ति तत्र सार्ना महागिरे । सर्वकागपदैः पुष्पैर्भूषितं रत्नमुत्त-
 मम् ॥ १० ॥ तदा च च्चोपभोक्षयामि तद्वनं तव सानुजम् । किं
 करिष्यसि क्रुद्धस्त्वं मनो हि त्वरते मम ॥ ११ ॥ जातारं नानु-
 परयामि गया खल्वर्दितस्य ते । इत्युक्तो मन्दरस्तेन तत्रैवान्तर-
 धीयत् ॥ १२ ॥ ततोऽथकोऽतिरूपितो वरदानेन दर्पितः । सुगोच-
 नादं सुगहदिद्रं वचनमब्रवीत् ॥ १३ ॥ मया नै त्वं याच्यमानो
 यस्मान्न बहु मन्यसे । अहं चूर्णी करोमि त्वां बलं पर्वत परय-
 मे ॥ १४ ॥ एवमुक्त्वा गिरेः शृंगमुत्पाद्य बहुयोजनम् निष्पिपेष
 गिरेस्तस्य शृङ्गेष्वन्यत्र वीर्यवान् ॥ १५ ॥ सह तैरसुरैः सर्वैर्वर-
 दानेन दर्पितः । तं प्रच्छन्ननदीजालं भञ्जयमानं महागिरिम् १६

मेरे भगमे मेरे सामने कोई लड़ना भी नहीं चाहता, हे महागिरे ।
 तुम्हारे शिखर पर सब कागनाओंको देने वाले पुष्पोंसे भूषित
 उत्तम रत्न परिजात हैं ॥ १० ॥ इस लिये तुम मुझे बताओ
 मैं तुम्हारे शिखर पर उत्पन्न हुए उस वचको भोगना चाहता
 हूँ, और तुम क्रोधमें भर जाओगे, तो भी मेरा क्या करोगे,
 क्योंकि-मेरा मन फुर्ती कर रहा है ॥ ११ ॥ जब मैं तुम्हे पीड़ा
 दूँगा, उस समय मुझे कोई तंगी रक्षा करने वाला नहीं दीखना,
 मन्दराचल पर्वत इस प्रकार कहने पर तहाँ ही अन्तर्धान हो गया १२
 तब तो वरदानके कारण दर्पमें भरे हुए अन्धकने क्रोधमें भर कर
 बड़ी जोरसे गर्जनाकर यह बात कही, कि- ॥ १३ ॥ हे पर्वत ।
 तू मेरे मार्थना करने पर भी मेरा कुछ सत्कार नहीं करता, इस
 लिये मैं तेरा चूरा किये डालता हूँ, तू मेरे बलको देख ॥ १४ ॥
 इस प्रकार कहनेके अनन्तर वीर्यवान् पर्वतके अनेक योजनों वाले
 शिखरको उखाड़ कर उसको दूसरों शिखरोंसे रगड़ने लगा १५
 वरदानके कारण उद्धत हुआ वह असुर अपने सब असुरोंके

विदित्वा भगवान् रुद्रश्चकारानुग्रहं गिरेः । सविशेषतरं वीरं
 मत्तद्विगमयामृतम् ॥ १७ ॥ नदीजालैर्बहुनरैराचितं त्रिविक्रान-
 नम् । नभश्चपुत्रैः पुरा गृहत्तद्वदेव विरागते ॥ १८ ॥ अग देव
 प्रभावेन शृङ्गाण्युत्पाद्यानि तु । क्षिप्तानि चासुरानेव ध्वन्ति
 घोरानि भारत ॥ १९ ॥ क्षिप्त्वा ये मपलायन्ते शृङ्गाणि तु महा
 सुराः । शृङ्गैस्त्वैस्ते स्म बध्यन्ति पर्वतस्य जगधिप ॥ २० ॥ ये
 स्वस्थास्त्वसुरास्तत्र तिष्ठन्ति गिरिसानुषु । शृङ्गैस्ते न स्य बध्यन्ते
 मन्दरस्य महागिरिः ॥ २१ ॥ ततोऽथकस्तदा दृष्ट्वा सेनां तां गर्दितां
 तथा । रुषिणः सुमहानादं नदित्वा न तदाऽब्रवीत् ॥ २२ ॥ आह्वये
 तं वनं यस्य युद्धार्थमुपतिष्ठतु । किं त्वयाचलयुद्धेन इता स्म
 च्छमना रणे ॥ २३ ॥ एवमुक्ते त्वन्धकेन वृषभेण महेश्वरः ।

साथ ऐसा करने लगा उस क्षिपे हुए नदीसमूह वाले पर्वतको
 दृष्टता हुआ जान कर महादेवने उस पर्वत पर अनुग्रह किया
 कि-वह आकाशसे गिरते हुए बहुतसे नदीसमूहोंसे व्याप्त विचित्र
 कानन बाली होकर पहिलेकी समान दिपने लगा ॥ १६-१८ ॥
 हे भरतवंशी राजन् ! महादेवके प्रभाववश राजसोंके उखाड़े हुए
 भग्नकर शिखर फँकने पर उन असुरोंका ही संहार करने लगे १९
 हे राजन् ! बड़े २ राजस जिन शिखरोंको उखाड़ कर फँकते थे
 पर्वतके उनही शिखरोंसे वह मारे जाते थे ॥ २० ॥ और जो
 पर्वतके शिखरोंपर स्वस्थ होकर बैठे हुए थे वे उस महापर्वतके
 शिखरोंसे नहीं मरते थे ॥ २१ ॥ उस समय अन्यक अपनी सेना
 को इस प्रकार कुचली हुई देव कर क्रोधमें भर कर दहाड़ने
 लगा और कहने लगा कि-॥ २२ ॥ यह जिसका वा है, मैं उसको
 लड़नेके लिए बुलाता हूँ, अरे ! तूने इस पर्वतसे युद्ध कर बल-
 पूर्वक हमें मारा तो क्या मारा ॥ २३ ॥ अंतकके इस प्रकार
 कहने पर महेश्वरदेव अन्यकको मारनेकी इच्छासे वृषभ पर

सम्प्राप्तः शुक्लमुद्यम्य देवोऽन्धकजिघांसया ॥२४॥प्रमथानां गणै-
र्धीमान् वृतो वै बहुलोचनः । तथाभूतगणैश्चैव धीमान् भूतगणै-
श्वरः ॥२५॥ प्रचक्रम्ये ततः कृत्स्नं त्रैलोक्यं रूपिते हरे । सिंघ-
चरत्र प्रतिस्रोतः मुहुः गञ्जलितोदकाः ॥ २६ ॥ जग्मुर्दिशोग्नि-
दाहाश्च सर्वे ते हरतेजसा । युयुधुश्च ग्रहाः सर्वे विपरीता जना-
धिप ॥२७॥ चैजुरच गिरयस्तत्र काले कुरुकुलोद्ग्रह । प्रववर्षाय
पर्जन्यः सधूमांगारदृष्टयः ॥ २८ ॥ उष्णभाश्चन्द्रगार्वासीत्
सूर्यः शीतप्रभस्तथा । न ब्रह्म विविदुस्तत्र मुनयो ब्रह्मवादिनः २९
बडवा सुपुवुर्गार्च गात्रोऽश्वानपि चानघ । पेतुर्दृक्षाश्च मेदिन्या-
मच्छिन्ना भस्मसात् कृता ३० वाधन्ते दृषमा गाश्च गात्रश्चा-
रुहदुर्वृषान् । राक्षसायानृथानाश्च पिशाचाश्चापि सर्वशः ३१

सनार ही शुक्ल ढडा कर आगए ॥ २४ ॥(उस समय) उनके
सीन नेव थे और वह बुद्धिमान् भूतगणेश्वर शंकर भूतोंसे और
गमर्थोंके गणोंसे घिर रहे थे ॥ २५ ॥ रुद्रके क्रोधमें भर जाने
पर सारी त्रिलोकी कांपने लगी, नदियोंके जल उल्टे चलने लगे
और उनके जल बार बार जलने लगे ॥ २६ ॥ हे राजन् ! उस
समय रुद्रके तेजसे सब दिशाओंमें आग लगने लगी और सब
ग्रह विपरीत होकर युद्ध करने लगे ॥२७॥ हे कुरुकुलोद्ग्रह! उस
समय पर्वत ढगगगाने लगे और मेघ धुएँ और झ्रजार मिली
वर्षा बरसाने लगा ॥ २८ ॥ चन्द्रमाकी कान्ति गर्म होगई और
सूर्यकी कान्ति ठण्डी पड़ गई और ब्रह्मवादी मुनि उस समय
ब्रह्मको न जान सके ॥ २९ ॥ हे निष्पाप ! घोड़ियेँ बैलोंको
उत्पन्न करने लगी और गौएँ घोड़ोंको उत्पन्न करने लगी और
दृक्त न कटने पर भी भस्म होकर पृथ्वीपर गिरने लगे ॥३०॥
उस समय वर्षा गौओंको पीड़ित करने लगे और गौएँ बैलों
पर चढ़ने लगी और राक्षस यातुपान तथा पिशाच भी (पीड़ित

विपरीतं जगद् दृष्ट्वा महादेवस्तथागतम् । मृगोच भगवांश्शूलं
 मदीप्ताग्निसमप्रभम् ॥ ३२ ॥ तत् पपात हरोत्सृष्टमन्धकोरसि
 दुर्धरम् । भस्मसाद्याकरोद्ग्रीदमन्धक साधुकण्टकम् ॥ ३३ ॥
 ततो देवगणाः सर्वे मुनयश्च तपोधनाः । शंकरं तुष्टुयुरचैव
 जगच्छत्रौ निवर्हिते ॥ ३४ ॥ देवदुन्दुभयो नेदुः पुण्यवृष्टिः पपात
 ह । त्रैलोक्यं निवर्तितं चासीन्नरेन्द्र विगतज्वरम् ॥ ३५ ॥
 मजगुर्देवगन्धर्वा ननुतुरवाप्सरोगणाः । जेषुश्च ब्राह्मणा वेदानी-
 जुश्च क्रतुभिस्तदा ॥ ३६ ॥ ग्रहाः मरुतिमापेदुरुहूर्नद्यो यथा
 पुरम् । न जज्वाल जले वह्निराशाः सर्वाः प्रसेदिरे ॥ ३७ ॥
 मन्दरः पर्वतश्रेष्ठः पुनरेव रराज ह । श्रिया परमया जुष्टः सर्व-
 तेजःसमुच्छवात् ॥ ३८ ॥ रेमे सोमश्च भगवान् पारिजातवने हरः ।

होने लगे) ३१ महादेवजीने इसप्रकार जगत्को विपरीत अवस्थामें
 पड़ा हुआ देखकर अपना आग्नि की समान मभावाला शूल छोड़ा
 वह शिवजीका छोड़ा हुआ दुर्धर शूल अन्धकके हृदयपर पड़ा और
 साधुओंके कान्ठे अन्धकको भस्म कर डाला ३३ उस समय सब
 देवता और तपोधन मुनि शंकरकी स्तुतिकरने लगे उस जगत्
 के शत्रुके मारे जाने पर देवदुन्दुभियें नजने लगीं, और हे नरेन्द्र!
 त्रिलोकी चितारहित हो आनन्दित होगई ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ उस समय
 देवताओंके गन्धर्व गाना गाने लगे, अप्सराएँ नाचने लगीं और
 ब्राह्मण वेदका अप करने लगे और यज्ञोंसे पूजन करने लगे ३६
 उस समय ग्रह मरुतिस्थ होगए और नदियें पहलेकी समान बहने
 लगीं, जलमें अग्निका जलना बन्द होगया, सब दिशाएँ निर्मल
 होगई ३७ और पर्वतश्रेष्ठ मन्दराचल भी सब प्रकारसे तेज बह
 जानेके कारण परमशीभासम्पन्न हो फिर सुशोभित दिखाई देन
 लगा ३८ (इस प्रकार) प्रभु भगवान् हर देवताओंको भली
 प्रकार घूमने योग्यकर धर्मपूर्वक उमाके साथ पारिजातवनमें घड़ीडा

सुगचारान् सुरान् कृत्वा शक्रादीन् धर्मतः प्रभुः ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारते भिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि अन्धकारवधे

सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥

जनमेजय उवाच । मुनेऽथकथयः श्राव्यः श्रुतोऽयं खलु भो
मया । शान्तिन्त्रयाणां लोकाणां कृता देवेन धीमता ॥ १ ॥

निकुम्भस्य इतं देहं द्वितीयं चक्रपाणिना । यदर्थं च यथा चैन
तद्भवान् वक्तुमर्हति ॥२॥ वैशम्पायन उवाच । श्रद्धानस्य राजेंद्र

वक्तव्यं भवतोऽनघ । चरितं लोकनाथस्य हरेरपिततेजसः ॥२॥
द्वारवत्यां निवमणे निष्णोरतुलतेजसः । समुद्रयात्रा संयासा तीर्थे

पिंडारके नृप ॥४॥ उग्रसेनो नरपतिर्वसुदेवश्च भारत । निक्षिप्तौ
नगराध्यक्षौ शेषाः सर्वे त्रिनिर्गताः ॥ ५ ॥ पृथग्बलः पृथग्

धीमान्लोकनाथो जनार्दनः । गोष्ठ्या पृथक्कुपाराणां नृदेवापित-
तेजसां ॥६॥ गणिकानां सहस्राणि निःसृजान नराधिप । कुपारैः

करने लगे ॥ ३६ ॥ सतासीवौ अयाप सगाप्त ॥ ८७ ॥

जनमेजयने कहा, कि-हे मुने ! मैंने अवश्य सुनने योग्य अंशक
का वध सुन लिया और बुद्धिमान् महादेवजीने तीनों लोकोंमें

शान्ति फैला दी थी (यह भी सुन लिया) १॥ अब आप चक्र-
पाणि श्रीकृष्णके द्वारा निकुम्भके दूसरे देहका वध किस प्रकार

आर जिस लिये हुआ हो उसको कहिये ॥ २ ॥ वैशम्पायनजी
ने कहा, कि-हे राजेंद्र ! हे निष्णाप ! आप (सरीखे) श्रद्धालु

पुरुषसे लोकोंके स्वामी अग्निनेजस्वी हरिका चरित्र (अवश्य)
कहवा चाहिये ३हे राजन् ! द्वारकामें निवास करने वाले अग्नि

नेजस्वी निष्णुको पिण्डारक तीर्थके लिए समुद्रयात्रा (करनेका
प्राप्त) आगया ॥ ४ ॥ हे भारत ! राजा उग्रसेन और नसु-

देव इन दो नगराध्यक्षोंको छोड़ कर जाती सून जाने चल दिये ५
अग्नि नेजस्वी कुपारोंको गोष्ठिमें बुद्धिमान् लोकनाथ जनार्दन

सह सार्णोपै रूपवद्भिः स्वलंकृतैः ॥ ७ ॥ दैन्यानिवासं निर्ज
 यदुभिर्द्विविक्रमैः । वेश्या निवेशिता वीर द्वारवत्यां सहस्रश
 सामान्यास्नाः कुमागणां क्रीडानार्यो महात्मनाम् । इच्छाभो
 गुणैरेव राजन्या, वेपयोपितः ॥६॥ स्थितिरेषा हि मैगानां ।
 कृष्णेन धीमता । स्त्रीनिमित्तं भवेद्द्वैरं-मा यदूनायिति प्रभो
 रेवत्या चरुणा सार्धं बली रेणऽनुकूलया । चक्रवाकानुरागेण र
 श्रेष्ठः गतापवान् ॥११॥ कादम्बरीपानकलो भूपिनो वनमाल्य
 चिकीड सागरजले रेवत्या सहितो बलः ॥ १२ ॥ पोटशम्
 सहस्राणि जले जलजलोचनः । रमणापास गोविन्दः विश्वरूपं
 सवदक् ॥१३॥ अहमिष्टा गया सार्धं जले वमनि केशनः । इ

अलग-चले और हे राजनीवलदेवनी अलग चले द्वै राजन
 रूपवान् अलंकृत वृष्णिवंशी कुमारोंके साथ सहस्रों गणिक
 निकली ॥ ७ ॥ हे वीर ! इन्द्रपराक्रमी यादवोंने दैन्यांके निवा
 स्थान समुद्रके जीवनेके अनन्तर द्वारकामें सहस्रों वेश्याएँ वा
 दी थीं ॥ ८ ॥ वे क्षत्रियोंकी वेश्याएँ महात्मा कुमारोंके लि
 सामान्य क्रीडा-नारियों थी और गुणोंके कारण इच्छा भो
 थीं हा हे भयो ! बुद्धिमान् श्रीकृष्णने भीमवंशियोंकी स्त्रियाँ
 इस लिये ऐसी कर दी थी, जिससे यादवोंमें स्त्रियोंके लिये वैप
 नश्य न फैले ॥ १० ॥ यादवोंमें श्रेष्ठ प्रनापी बलदेवनी अप
 अनुकूल रहने वाली एक रेवतीके साथ ही चक्रवर्ती सगण अनु
 राग रख कर रमण करते थे ॥ ११ ॥ कादम्बरी (सुरा) क
 पान करनेसे विकल और वनमालामे विभूषित बलदेवनी रेवती
 के साथ समुद्रके जलमें क्रीडा करने लगे १२ सब ओर देखने
 वाले कमललोचन अपनी सोलह सहस्र स्त्रियोंके साथ विश्वरूप
 से अर्थात् सबके साथ अलग-रूप धारण कर रमण करने
 लगे ॥१३॥रात्रिमें नारायणकी सप्त स्त्रियें यह मानने लगीं, कि-

ता मेनिरे सर्वा रात्री नारायणस्त्रियः ॥ १४ ॥ सर्वाः सुरत-
चिह्नार्थः सर्वा सुरततर्पिताः । मानमूहश्च ताः सर्वा गोविन्दे बहु-
मानजम् ॥ १५ ॥ अहमिष्टाऽहमिष्टेति स्निग्धे परिजने तदा ।
नारायणस्त्रियः सर्वा मुदा शशलाधिरे शुभाः ॥ १६ ॥ करभद्विज-
चिन्हानि कुचाधरगतानि ताः । दृष्ट्वा दृष्ट्वा जहृपिरे दर्पणे कमले-
क्षणाः ॥ १७ ॥ गोत्रमुद्दिश्य कृष्णस्य जगिरे कृष्णयोपितः ।
पिबंत्य इव कृष्णस्य नयनेर्वदनांबुजम् ॥ १८ ॥ कृष्णार्पितमनो-
दृष्ट्यः कान्ता नारायणस्त्रियः । मनोहरतरा राजन्नभयन्नेकनि-
श्रयाः ॥ १९ ॥ एकार्पितमनोदृष्ट्यो नेष्यां ताक्षकुरेगना । नारा-
यणेन देवेन तर्प्यमाणमनोरथाः ॥ २० ॥ शिरांसि गर्वितान्यूहुः
सर्वा निरवशेषतः । वान्लाभ्यं केशवमयं वहन्त्यश्चारुदर्शनाः २१

केशव गेरे साथ जलमें क्रीड़ा कर रहे हैं, मैं उन्हें बड़ी प्यारी हूँ १४
सबमें सुरतके चिन्ह थे सब सुरतसे तृप्त होगई थी, इस लिए वे
गोविन्दने हमारा बड़ा सत्कार किया है, इस मानमें भर गई १५
नारायणकी शुभ स्त्रियें अपने स्नेही समरन्धियोंसे प्रशंसा करने
लगीं, कि - मैं उनकी प्यारी हूँ, मैं उनकी प्यारी हूँ १६ वे कमल-
नेत्रा स्त्रियें दर्पणमें अपने कुचों पर अंगुली और दातोंके चिन्ह
देख कर प्रसन्न होने लगीं १७ कृष्णकी स्त्रियें अपने नेत्रोंसे
श्रीकृष्णके मुखकमलका पान करती हुई श्रीकृष्णका नाम ले २
कर गाने लगीं १८ हे राजन् ! कृष्णमें ही मन और नेत्रोंको लगाने
वाली नारायणकी मनोहर स्त्रियें एक निश्रय वाली होनेसे और
भी मनोहर होगई १९ नारायण देवने उनके मनोरगोंको पूर्ण
कर दिया था अतः एक पुरुषमें मन और दृष्टिको लगाने पर भी
उन्होंने ईर्ष्या नहीं की २० रगणीय दीखने वाली वे स्त्रियें केशव
की प्यारी होनेका ध्यान पर अपने शिरोंको पूर्ण गर्वसे हिलाने
लगीं २१ (इस प्रकार) आत्मवान् श्रीकृष्णने विश्वरूपसे उन

ताभिस्तु सह निक्रीड सर्वाभिर्हरिरात्मवन् । विश्वरूपेण विधिना
 समुद्रे विमले जले ॥ २२ ॥ उवाह सर्वागन्धाढ्यं स्वच्छं वारि
 महोदधिः । तोयं चालवणं मृष्टं वासुदेवस्य शासनात् ॥२३॥
 शुक्लदधनं जानुदधनमूदधनमथापि वा । नार्यस्ताः स्तनदधनं
 वा जलं समभिकान्तिनम् ॥२४॥ सिपिचुः केशवं पत्न्यो धीरा
 इव महोदधिम् । सिपेच ताश्च गोविन्दो मेघः फुल्ललता इव २५
 अपल्लव्य पराः कण्ठे हरिं हरिणलोचनाः । उपगूह स्य मां वीर
 पतामीत्यब्रुवन् स्त्रियः ॥ २६ ॥ काश्चित् काष्ठमद्यैस्तेहः सर्वाः
 सर्वाङ्गशोभनाः । क्रौंचवर्हिणानागानापाकारसदृशैः स्त्रियः ॥२७॥
 मकराकृतिभिश्चान्वा गीनाभैरपि चापराः । बहुरूपाकृतिधरैः
 पुष्पुवुरचापराः स्त्रियः ॥ २८ ॥ स्तनकुम्भैस्तथा तेहः कुम्भैरिव

सम स्निघ्णोके साय समुद्रके निर्मल जलमें क्रीडाकी थी २२ उन
 वासुदेवकी आज्ञासे समुद्रने अपने जलको सब प्रकारकी सुगन्धों
 युक्त और अलवण (खारीपनरहित) कर दिया था ॥२३॥ वे
 स्त्रियें एड़िये तक घुटनों तक, जाँघों तक अपवा स्तनों तक मन
 चाहे अलमं खड़ी होकर केशवके ऊपर इस प्रकार जल उलीचने
 लगीं जिस प्रकार नदियें समुद्र पर जल डालती हैं और केशव भी
 उन पर इस प्रकार जल छिड़कने लगे, जिस प्रकार मेघ पुष्पित
 लताओं पर जल बरसाता है २४-२५ हरिणकी समान नेत्रोंवाली
 स्त्रियें श्रीकृष्णके कण्ठमें (हाथ) डाल कर कहने लगी, कि हेवीर!
 मैं गिरी जाती हूँ मेरा आलिंगन करो, २६ (उस समय) कुछ
 सर्वाङ्गसुन्दरी स्त्रियें गौर क्रौंच और हाथियोंके आकार वाली
 काठकी नावोंमें सवार हो जल पर तैरने लगीं ॥२७॥ और दूसरी
 स्त्रियें मगर और मच्छके आकार वाली तथा और भी अनेक
 प्रकारके आकारवाली नौकाओं पर चढ़ कर शौर करने लगीं - २८
 कुछ स्त्रियें श्रीकृष्णको मसन्न करती हुई अपने स्तनरूपी कुम्भोंसे

तथापराः । समुद्रसलिले रम्ये हर्षयन्त्यो जनार्दनम् ॥ २६ ॥
रराम सह रुक्मिण्या जले तस्मिन् मुदा युतः। येनैव शार्ङ्गयो-
गेन रमतेऽमररात्तपः ॥ ३० ॥ तत्तदेवहिगार्श्चक्रुर्मुदा नारायण-
स्त्रियः । तनुवन्त्रागृतासान्गो लीलयन्तस्तथापराः । चिक्रीडु-
र्वासुदेवस्य जले जलजलोचनाः ॥ ३१ ॥ यस्या यस्यात्तु यो
भावस्तां तां तेनैव वेशत्रः । अनुपविश्य भावज्ञो निनायात्मदशं
वेशी ॥ ३२ ॥ हृषीकेशोऽपि भगवान् हृषीवेशः सनातनः । बभूव
देशकालेन कान्तावशगतः प्रभुः ॥ ३३ ॥ कुलशीलसमोऽस्माकं
योग्योऽयमिति मेनेरं । वांशरूपेण वर्तनमंगनास्ता जनार्दनम् ३४
तदा दान्तिणयुक्तं तं स्मितपूर्वाभिभाषिणम् । कृष्णं भार्याश्च-
कगिरे भक्त्या च बहु मेनिरे ॥ ३५ ॥ पृथग्व्योष्ठयः कुमाराणां

समुद्रके जलमें इस प्रकार तैने लगी, जिस प्रकार चढ़ों पर तैर
रही हों २६ उस जनमें श्रीकृष्ण (भी)पसन्न होकर रुक्मिणीके
साथ रमण कर रहे थे, देवताओंमें श्रेष्ठ कृष्ण जिस २ प्रकार
रमण करना चाहते थे नारायणकी स्त्रियें पसन्न होकर तिसी
तिसी प्रकार करती थीं, कमलकी समान नेत्रों वाली वासुदेवकी
सूक्ष्मवस्त्रधारिणी दूसरी सूक्ष्माङ्गी स्त्रियें क्रीड़ा करके जलमें
आनन्द पानने लगीं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ पशुओंके चित्तोंके भाव
को जानने वाले वशी श्रीकृष्णने जिसका जो भाव था, उसको
उसके चित्तमें प्रवेश कर जान लिया फिर उसको उसी भावसे
वशमें करने लगे ३२ इन्द्रियोंके स्वामी प्रभु हृषीकेश भी देश और
कालमें देखकर स्त्रियोंके वशमें हो गए ३३ श्रीकृष्णके कुलीन
पुरुषोंके योग्य वर्तन करते देखकर वह स्त्रियें समझने लगीं कि-
यह हमारे कुल और शीलके समान ही योग्य है ३४ उस समय
सुसुराकर भाषण करने वाले चतुरतायुक्त श्रीकृष्णने श्रीकृष्ण
की भार्याएँ चाहने लगी और भक्तिपूर्वक उनको बहुत पानने

प्रकाशं स्त्रीगणैः सह । अलं चक्रुर्जलं वीराः सागरस्य गुणान्-
कराः ॥ ३६ ॥ गीगन्तुविधिज्ञानां तासां स्त्रीणां जनेश्वर ।
तेजसाप्याह्वानां ते दान्निष्पासस्थिरे वशे ॥ ३७ ॥ शृण्वन्तरचा-
रुगीतानि तथा स्वभिनयान्यपि । तूर्याण्युत्तमनारीणां मुमुहुर्यदु-
मुहवाः ॥ ३८ ॥ पञ्चचूडां ततः कृष्ण कौबेर्यश्वः वरोपतराः ।
माहेंद्रीरत्नगामास निश्वरूपेण हेतुना ॥ ३९ ॥ ताः प्रोवाचा-
प्रमेयात्मा सांत्वयि वा जगत्प्रभुः । उत्थापयित्वा गणताः कृतां-
जलिपुटांस्तथा ॥ ४० ॥ क्रीडापुत्रस्यो भेगानां प्रविशध्वपशंकिताः
गत्स्मिगार्थं वरारोहा रमपध्वं च यादवान् ॥ ४१ ॥ दर्शयध्वं
गुणान् सर्वान् नृत्यगीतैः रहाःसु च । तथाऽभिनययोगेषु नाद्येषु
विनिश्रेयु च ४२ एवं कृते निशासंगाणि श्रेयो वा मनसेत्सितम् ॥

लगीं ३५ गुर्गाकी खान कुतारोंकी गोष्ठिमें भी प्रकाशरूपसे स्त्रियों
को लेकर समुद्रके जलके अलं कृत करने लगीं ३६ हे जनेश्वर !
वे तेनपूर्वक लाई हुई गीत और नृत्योंकी विधिको जानने वाली
स्त्रियोंकी चतुरतासे उनके वशमें होगए ३७ यादनपुङ्गव उत्तम
स्त्रियोंके पनोहर गीतोंको और तूर्योंको सुन कर तथा अभिनयों
को (देख कर) मोहित होगए ३८ कृष्ण निश्वरूप थे अर्थात्
जीवोंके नियन्ता थे इस लिये उन्होंने पञ्चचूडा अप्सराको कुबेर
के यहाँकी तथा इन्द्रके यहाँकी श्रेष्ठ अप्सराओंको भी बुलवा
लिया ३९ जगत्के प्रभु अमेयात्मा कृष्णने उन हाथ जोड़ कर
गणाय करती हुई अप्सराओंको उठा कर समझाते हुए कहा,
कि-॥४०॥ हे वरारोहाओं ! तुम मेरा प्रिय करनेके लिये भीम-
वंशियोंकी क्रीडापुत्रती वन कर उनके पास जाओ और यादवों
को प्रसन्न करो ४१ तुम नृत्य गीत आदि सब गुणोंको दिखाओ
और एकान्तमें अभिनय और अनेक प्रकारके वागोंके गुणोंको
दिखाओ ४२ ऐसा करने पर मैं तुम्हारा मनोवाञ्छित कल्याण

मच्छरीरसमा द्योते सर्वे निरयशेषतः ४३ शिरसाङ्गां तु ताः सर्वाः
 प्रतिगृह्य हरेस्तदा । क्रीडायुवतीषो विविश्रुर्भेमानामप्सरोवराः ४४
 ताभिः प्रविष्टमात्राभिर्द्योतितः स महार्णवः । सौदामिनी भिर्नभसि
 घनवृन्दगियानघ ॥४५ ॥ ता जले स्थलवत् स्थित्वा, जगुश्चाप्यथ
 वादयन् । चतुश्चाभिनयां सम्प्रक् स्वर्गावास इवांगनाः ४६ गन्धे-
 र्मान्यौश्च ता दिव्योर्गन्धैश्चागतलोचनाः । हेलाभिर्हास्यभावैश्च
 महूर्भेममनांसि ताः ॥४७ ॥ कटाक्षैरिगितैर्हास्यैः केलिरोपैः प्रसा-
 दितैः । मनोजुकूलैर्भेमानां समाग्रहूर्मनांसि ताः ॥४८ ॥ उत्क्षिप्यो-
 त्क्षिप्य चाकाशं वातस्कन्धान् बहूँश्च तान् । मदिरावशमान्
 भैमानानयन्ति वराप्सराः ॥ ४९ ॥ कृष्णोऽपि तेषां प्रीत्यर्थं
 विजहो विगति प्रभुः । सर्वैः षोडशभिः सार्धं स्त्रीसहस्रैर्मुदा-

कङ्गा, ये सब यादव मेरे शरीरकी समान हैं ॥ ४३ ॥ तब तो
 क्रीडायुवती श्रेष्ठ अप्सरायें श्रीकृष्णकी आङ्गाङ्को शिर पर चढा
 कर भीमवांशियोंके समीप घुमीं ॥४४॥ हे निष्णाप ! उनके प्रवेश
 करते ही महासमुद्र इस प्रकार दमक उठा जिस प्रकार विजलियों
 से आकाशमण्डल दमक उठता है ४५ वे जलमें स्थलकी समान
 खड़ी होकर गाने बजने लगीं फिर स्वर्गकी समान ही समुद्रमें
 अभिनय करने लगीं ४६ वे विशालनेत्रा स्त्रियें ! गङ्गोसे घन्दन
 से दिव्यवस्त्रोंसे हेलासे और मुस्कुरानेकी भंगियोंसे भीमवांशियों
 के मनको खेंचने लगीं ॥ ४७ ॥ तथा कटाक्ष, इशारे, हास्य,
 क्रीडाके समयका रोप और भीमवांशियोंके मनके अनुकूल प्रसन्न
 करने वाले पदार्थोंसे भीमवांशियोंके मनको हरने लगीं ॥ ४८ ॥
 श्रेष्ठ अप्सरायें मदिराके वशमें हुए भीमवांशियोंको (आवह मवह
 आदि ऊपरके रमणीय) वायुके आवरणोंमें ले जाकर तथा
 आकाशमें लेजाकर उनको लौटा लातीं थीं ४९ प्रभु श्रीकृष्ण
 भी अपनी सोलह सहस्र स्त्रियोंका प्रिय करनेके लिये मसन्नता

नितः ॥ ५० ॥ प्रभातज्ञास्तु ते वीराः कृष्णस्यामिततेजसः । न
जग्मुर्विस्मयं मैत्रा गांभीर्न परमास्थिताः ॥ ५१ ॥ केचिद्रैवतकं
गत्वा पुनरायान्ति भारत । गृहाणन्त्ये वनान्धन्ये कान्तितान्य-
रिगर्दन ॥ ५२ ॥ अपेयः पेयसलिलः सागरश्चाभवत्तदा ।
आज्ञया लोकनाथस्य विष्णोरतुल्यतेजसः ॥ ५३ ॥ अथावन स्थल-
वचाणि जले जलनलोचनाः । गृह्य हस्ते तथा नार्यो युक्ता मज्जं-
स्तथापि च ॥ ५४ ॥ भक्ष्यभोज्यं नि पेयानि चोर्ष्यं लेह्यन्तथैव च ।
बहुपकारं मनसा ध्याने तेषां भवत्युत ॥ ५५ ॥ अम्लानगान्ध-
धारिएपस्ताः स्त्रियस्तागनिन्दितान् । रहस्यं रगयांचक्रुः स्वर्गे
देवतानुगाः ॥ ५६ ॥ नागिर्गृहपकाराभिश्चिक्रीडुरपराजिताः ।
तास्मान्नुलिप्तमुदिताः सागाह्येऽन्धकवृष्णवः ॥ ५७ ॥ आयताश्व-

से आकाशमें विहार करने लगे ॥ ५० ॥ भीमवंशी वीर अगित
तेजस्वी श्रीकृष्णके प्रभावको जानते थे, इस लिये उन्होंने कुछ
विस्मय नहीं किया और परग गम्भीर बने रहे ॥ ५१ ॥ हे अरि-
मर्दन ! बहुतसे व्यक्ति अपने कान्ति धर वन और रैवत पर्वत
पर जाकर भी फिर लौट आते थे ॥ ५२ ॥ अतुल्य तेजस्वी लोक-
नाथ विष्णुकी आज्ञासे अपेय जल वाला समुद्र भी पीनेयोग्य जल
वाला हो गया था ॥ ५३ ॥ वे कगलकी सगान नेत्रोंवाली स्त्रियों
हाथ पकड़ कर जलमें स्थलकी सगान चलने लगती थीं और
कभी हाथ पकड़ कर गोता लगाती थीं ॥ ५४ ॥ उनके मनमें
चाहते ही अनेक प्रकारका भक्ष्य भोज्य, पीने योग्य और चाटने
योग्य पदार्थ आ जाता था ॥ ५५ ॥ बिना कुम्हलाई हुई माला
के धारण करने वाली वे स्त्रियों स्वर्गमें देवताओंकी क्रीडामें तत्पर
होनेकी समान अनिन्दित यादवोंकी एकान्तमें रमण कराने
लगी ॥ ५६ ॥ सारंगकालके समय अपराजित अन्धक और वृष्णि-
वंशी उन वन (सुगन्धित) वस्तुओंका अनुलेपन करनेसे प्रसन्न

तुरसाश्च वृत्ताश्च स्वस्तिकास्तथा । प्रसादा नौषु कौरव्य विहिता
 विश्वकर्मणा ॥ ५८ ॥ कैलासगन्दरच्छन्दा मेरुच्छन्दास्तथैव च ।
 तथा नानावपश्छन्दास्तथेहामृगरुपिणः ॥ ५९ ॥ वैदूर्यतोरणौ-
 धित्राश्चित्रागिर्मणिभक्तिभिः । मसारगत्वर्कगयैश्चित्रर्माक्तशतै-
 रपि ॥ ६० ॥ आक्रीडगरुडच्छन्दाश्चित्राः कनकरीतिभिः । क्रौंच-
 च्छन्दा शुक्रच्छन्दा गजच्छन्दास्तथापरे ॥ ६१ ॥ कर्णधारैर्गृही-
 तास्ता नावः कार्तस्वरोज्ज्वलाः । सलिलं शोभयामासुः साग-
 रस्य महोर्मिमत् ॥ ६२ ॥ समुच्छ्रितैः सितैः पोतैर्यानपात्रैस्तथैव च ।
 नौभिश्च भिन्लिफाभिश्च शुशुभे वरुणालयः ६३ पुराणगाकाश-
 गानीव गन्धर्वाणापितस्ततः । वभ्रभ्युः सागरजले भैगयानानि
 हो घरकी सगान बनी हुई स्वेत नावोंमें क्रीड़ा करने लगे ५७
 हे कुहवंशी राजन् ! विश्वकर्माने नौकाओंमें चौड़े, चौकोने, गोल,
 और स्वरितकाकार वाले भवन बना दिये थे ॥ ५८ ॥ कैलास
 अथवा गन्दराचलकी समान छन्द (यथेष्ट आकार) वाली, तथा
 मेरुपर्वतकी समान छन्द वाली, तथा अनेक प्रकारके पत्तियोंके
 रूप वाली, और ईहामृगोंके रूप वाली, वैदूर्यके तोरणोंसे और
 विचित्र मणियोंके जड़ावसे और मरकतमणि चन्द्रकान्त मणियों
 से बनाए हुए सैंकड़ों नित्रोंसे विव्रित, गरुड़की समान आकार
 वाली, कनककी काशीगरीसे विचित्र, क्रौंच शुक्र और हाथीके
 आकार वाली, गजलाहोंसे पकड़ी हुई सुवर्णकी समान उज्ज्वल
 नौकाएँ समुद्रके बड़ी २ लहरों वाले जलको सुशोभित करने
 लगीं ॥ ५९—६२ ॥ वरुणका स्थान समुद्र (जलमें आखेट
 करने योग्य क्षुद्रनौकारूप) पोतोंमें, (बड़ी २) नौकाओंसे, और
 (भवनकी समान बनी हुई) नृत्य लीला आदिके योग्य लंबी चौड़ी)
 भिन्लिफा नाम वाली नौकाओंसे शोभा पाने लगी ॥ ६३ ॥
 आकाशमें इधर उतर फिरने वाले गंधर्वनगरोंकी समान भीम-

सर्पतः ॥ ६४ ॥ नन्दनच्छन्दयुक्तेषु यानपात्रेषु भारत । नन्दन-
 प्रतिगं सर्वं विहितं विश्वकर्मणा ॥ ६५ ॥ उद्यानानि सभावृक्षाः
 दीर्घिणाः स्यन्दनानि च । निवेशितानि शिल्पानि तादृशान्येव
 सर्वथा ॥ ६६ ॥ स्वर्गच्छन्देषु चान्येषु सगासात् स्वर्गसन्निभाः ।
 नारायणाज्ञया वीर विहिता विश्वकर्मणा ॥ ६७ ॥ वनेषु रु-
 द्धुर्द्वयं मधुरं चैव पत्निः । मनोहरतरं चैव भैरवनापतितोज-
 साम् ॥ ६८ ॥ देवलोकोज्जवाः श्वेता विलेपुः कोकिलास्तदा ।
 मधुराणि विनित्राणि यदूनां कान्तिनानि च ॥ ६९ ॥ चन्द्रांशु-
 समरूपेषु हर्म्यपृष्ठेषु वर्हिणः । नवतुर्मधुरारावाः शिल्पिण्डगण-
 सम्भृताः ॥ ७० ॥ पताका यानपात्राणां सर्वाः पत्निगणायुताः ।
 भ्रमरैरुपगीताश्च स्रग्दामासक्तवासिभिः ॥ ७१ ॥ नारायणाज्ञया
 वंशियोंके यान समुद्रके जलमें चारों ओर-घूमने लगे ॥ ६४ ॥
 विश्वकर्माने नन्दनवनकी सगान बनाई हुई नौकाओंमें सब काम
 नन्दन वनकी समान ही बना दिया था ६५ उनमें बाग बगीचे
 सभा तह और वानड़ी तथा रथ आदि शिल्पसे जैसे ही बना दीं
 थीं ॥ ६६ ॥ हे वीर ! नारायणकी आज्ञासे विश्वकर्माने स्वर्गकी
 सगान बनाई हुई नौकाओंमें संक्षेपसे स्वर्गकी सारी सामग्री रच
 दीं थीं ॥ ६७ ॥ अतितेजस्वी भीमवंशियोंकी (नौकाओंमें बने
 हुए) वनोंमें पत्नी हृदयप्रिय मनोहर और मधुर बाणीका उच्चा-
 रण करने लगे ६८ देवलोकमें उत्पन्न हुई श्वेत कोयलें यादवों
 की चार्हीं हुई विनित्र मधुर आलाप अलापने लगीं ६९ चन्द्रमा
 के किरणोंकी सगान रूप वाले महलकी छतों पर मयूर मधुरता
 से कूकने लगे ॥ ७० ॥ यानपात्र नामक नौकाओंकी सम्पूर्ण
 पत्निगणसे युक्त ध्वजारै मालाकी आसक्तिसे खिचने वाले भौरों
 से व्याप्त होगई ॥ ७१ ॥ नारायणकी आज्ञासे वृक्ष बहुतसे पुष्पों
 को बरसाने लगे और ऋतुएँ भी आकाशमें विराजमान हो

वृत्ताः पुण्याणि सुमुचुर्भृशम् । अतवश्चारुरूपाणि विहायसि गता-
स्तदा ॥७२॥ वचो मनोहरो वातो रतिखेदहरः सुखः । रजोभिः
सर्वपुष्पाणां पृक्तश्चन्दनशैत्यभृत् ॥ ७३ ॥ शीतोष्णमिच्छतां तत्र
वभूव वसुधापते । वासुदेवमसादेन भैमानां क्रीडतां तदा ॥७४॥
न ह्युत्पिपासा न ग्लानिर्न निता शोक एव च । आविवेश तदा
भैमान् प्रभावाच्चक्रपाणिनः ॥ ७५ ॥ अपशान्तमहातूर्गा गीत-
नृत्योपशोभिताः । वभूवुः सागरक्रीडा भैमानामनितेजसाम् ७६
वह्व्योजनविस्तीर्णं समुद्रं सलिङ्गाशयम् । रुध्वा निक्कीडुरिन्द्राभा
भैमाः कृष्णाभिरक्षिताः ॥ ७७ ॥ परिच्छदस्यानु रूपं यानपात्रं
महात्मनः । नारायणस्य देवस्य विहितं विश्वकर्मा ॥ ७८ ॥
रत्नानि यानि त्रैलोक्ये विशिष्टानि विशाम्पते । कृष्णस्य तानि
सर्वाणि यानपात्रेऽतितेजसः ॥७९॥ पृथक्पृथङ्ङुनिवासाश्च स्त्रीणां

मनोहर रूपोंको दिखाने लगीं ॥ ७२ ॥ सब पुष्पोंके परागोंसे
भरा हुआ और चन्द्रमाकीसी शीतलताको धारण करने वाला
मनोहर वायु खेदको विलकुल दूर करता हुआ चलने लगा ७३
हे राजन् ! तहाँ पर क्रीड़ा करने वाले यादवोंको वासुदेवके प्रभाद
के कारण गरमी सर्दी चाहने पर ही लगती थीं ॥ ७४ ॥ उस
समय चक्रपाणि श्रीकृष्णके मभाव-वश भीमवांशिगोंमें भूख प्यास
भय ग्लानि चिन्ता और शोक न घुम सका ॥७५॥ अतितेजस्वी
भीमवांशिगोंके समुद्र खेल गति और नृत्योंसे शोभित होगए और
उनमें महातूर्ग वजने लगे ॥ ७६ ॥ कृष्णसे रक्षित इन्द्रकी सगान
आभा वाले भीमवांशी जलके आशय समुद्रको कई योजनमें घेर
कर क्रीड़ा करने लगे ॥ ७७ ॥ विश्वकर्माने महात्मा नारायण
का यान (सोलह सहस्र स्तंभोंके अर्थात्) परिच्छदके अनुरूप
बनाया था ॥ ७८ ॥ हे राजन् ! त्रिलोक्यमें जितने वटिका रत्न
हैं वे सब अतिनेत्रस्त्री कृष्णकी नौकामें विद्यमान थे ॥ ७९ ॥

कृष्णस्य भारत । गणिवीर्यवित्रास्ताः कार्तस्वरविभूषिताः ॥ ८० ॥
 सर्वतु कुसुमाकीर्णाः सर्वगन्धाधिवासिताः । यदुसिद्धैः शुभैर्जुष्टाः
 शकुनैः स्वर्गवासिभिः ॥ ८१ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुगर्भणि भानु-
 मतीहरणे अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥

वैशम्पायन उवाच । रेमे बलश्रन्दनपंकदिग्धः कादम्बरीपान-
 कलः पृथुश्रीः । रक्तेक्षणो रेवतिगाश्रयित्वा मलम्बवाहुस्सल्लितः
 प्रपातः ॥ १ ॥ नीलाम्बुदाभे वसनं वसानश्चन्द्राशुगौरो मदिरा-
 बिलासः । रराज रामोऽम्बुदमध्यमेतद्य सम्पूर्णविम्बो भगवानि-
 वेन्दुः ॥ २ ॥ वार्तिककर्णामलकुण्डलश्रीः स्मेरन्गनोज्ञान्जकृता-

हे भरतवंशी राजन् ! कृष्णकी स्त्रियोंके लिए गणिवीर्य और कुसु-
 र्मासे चित्रित और सुवर्णसे भूषित (निवास) डेरे अलग २ पड़े
 हुए थे ॥ ८० ॥ उनमें सन शकुनोंके फूट भर रहे थे और सन
 प्रकारकी सुगन्धित वस्तुओंसे वे नसे हुए थे, स्वर्गवासी शुभ पत्नी
 उगका सेवन कर रहे थे और गादवोंमें सिद्धही समान यादव
 उनकी ओर प्रेमपूर्णक देख रहे थे ॥ ८१ ॥ अट्ठासीवाँ अध्याय
 समाप्त ॥ ८८ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-उस समय नन्दनके रसको लगाए
 हुए, कादम्बरी (सुरा) का पान करनेसे विह्वल, महाशोभावान्
 लम्बी भुजाओं वाले लाल र नेत्रों वाले अङ्गुलङ्गाते हुए रेवतीका
 आश्रय कर रमण करने लगे ॥ १ ॥ नीले मेंथोंकी आभाकी
 समान दो वस्त्रोंको धारण करने वाले और चन्द्रमाकी किरणों
 की समान आभा वाले तथा मदिरासे गढ़ले नेत्रों वाले बलराम
 जी मेंथोंके बीचमें आए हुए पूर्ण विम्ब वाले चन्द्रमाकी समान
 प्रतीत होने लगे ॥ २ ॥ एक वार्ये कानमें निर्मल कुण्डलोंकी शोभा
 को धारण करने वाले, मनोहर कमलका कर्णफूल पहिरे हुए बल-

वतंसः । तिर्यक्कटाक्षं प्रियया सुगोद रागो मुखं चार्वाभिबीक्ष्य-
 माणः ॥ ३ ॥ अथाज्ञया कंसनिकुम्भशत्रोर्हृदारूपोऽप्सरणा
 गणः सः । दृष्टुं मुदा रेवतिमाजगाम वेलालयं स्वर्गसमान-
 मृद्धया ॥ ४ ॥ तां रेवतीं चाप्यथ वापि रामं सर्वा नगस्कृत्य
 वरांगणपृथः । बाद्यानुख्यं जनतुः सुगात्र्यः सगन्ततोन्त्या जगिरे
 च सम्यक् ॥ ५ ॥ चक्रुस्तथैवाभिनयेन लब्धं यथावदेपां प्रियमर्थ-
 युक्तम् । ह्यानुकूलं च बलस्य तस्य तथाज्ञया रैवतराजपुत्र्याः ६
 चक्रुर्हसन्त्यश्च तथैव रासं तद्देशभाषाकृतिवेषयुक्ताः । सहस्त-
 तालं ललितं सलीलं वरांगना गङ्गलसम्भृतांग्यः ॥ ७ ॥ संकल्पणा-
 धोत्तजनन्दनानि संकीर्त्यगन्त्योऽथ च गङ्गलानि । कंसपलम्बादि-
 वधं च रम्यं चाणूरघातं च तथैव रंगे ॥ ८ ॥ यशोदया च

देवती अपनी प्रियाके तिरछे कटाक्षको देख कर मुस्कुरा कर प्रसन्न
 होने लगे ३ इसके अनन्तर कंस और निकुम्भके शत्रु श्रीकृष्ण
 की आज्ञासे महारूपवान् अप्सराओंका समूह रेवतीको देखनेकी
 इच्छासे ऋद्धिमें स्वर्गभी सगान (बलदेवजीके) समुद्रकी ओर
 आया ॥ ४ ॥ सुन्दर मेरुदण्ड वाली वे सच स्त्रियें बलदेव और
 रेवतीके पास आ उनको गणना कर बाजों (कं वजने) के अनु-
 सार नाचने लगीं, दूसरी सु दरांगी रित्रयें भली प्रकार गाने
 लगीं ॥ ५ ॥ (आज्ञा पाने पर) इनको प्रसन्न करनेके लिए
 वे अपनी शिञ्जानुसार रैवतराजकी पुत्री और बलदेवजीके मन
 को प्रसन्न करने वाला अभिनय करने लगीं ॥ ६ ॥ पागलिक
 वस्तुओंसे व्याप्त शरीर वाली वे वरांगनाएँ उनके देशकी भाषा
 वेष और कुशलताओंसे युक्त होकर हँसती हुई गाना गानेलगीं ७
 वे बलराज और श्रीकृष्णको मसन्न करने वाले गीत गाने लगीं,
 कंस पलम्ब आदिका वध, रंगस्थलमें चाणूरका रमणीय वध;
 यशोदाका यशको मसिद्ध करना दामोदरका दामोदरत्व, अरिष्ट

प्रथितं यशोध दामोदरत्वं च जनार्दनस्य । वध तथारिष्टकथेन
 वाभ्यां व्रजे च वासं शकुनीवधं च ॥ ६ ॥ तथा च भर्गो यम-
 लार्जुनो तो सृष्टिं वृषाणापि वत्सपुक्ताम् । स वालिगो नाग
 पतिर्हृदे च कृष्णेन दान्तश्च यथा दुरात्मा ॥ १० ॥ शंखहृदा
 दुद्धरणं च वीर पद्मोत्पलानां मधुसूदनेन । गोवर्धनोऽर्थे च गवां
 धृतोऽभूद्यथा च कृष्णेन जनार्दनेन ॥ ११ ॥ कुन्जा यथा गंधक-
 पीपिकां च कुञ्जताहीनां कृतवांश्च कृष्णः । अचामनं वामनकं
 च चक्रे कृष्णो यथात्पानमगोऽप्यनिद्यः ॥ १२ ॥ सौभगपाथं च
 हलायुधत्वं वधं सुरस्याप्यग देवशत्रोः । गन्धारकन्ये वहने
 नृपाणां रथे तथा योजनमूर्जितानाम् ॥ १३ ॥ ततः सुभद्राहरणे
 जगं च युद्धे च बालाहकजम्बुपाले । रत्नमवेकं च युधार्जितैर्यत्
 समाहृतं शकसपत्नमासीत् ॥ १४ ॥ एतानि चान्यानि च चारु

और धेनुकका वध; व्रजमें निवास, शकुनी-पूतना-का वध,
 यमल और अर्जुन नामक पेड़ोंका तोड़ना, बड़ड़ोंका हरण करने
 वाली भेड़ियांकी सृष्टि; और कृष्णने सर्पपति दुरात्मा वालियका
 सरोवरमें जिस प्रकार दमन किया था वह घटना, और हे वीर !
 मधुसूदनके द्वारा कमलोंका उद्धार, और गौओंके लिए जनार्दन
 कृष्णने जिस प्रकार गोवर्धन पर्वतको धारण किया था, कृष्णने
 चन्दन घिसने वाली कुन्जाका जिसप्रकार कूनड़ निश्चाल दिया था
 और अग्निद्विज अज कृष्णने जिस प्रकार स्वयं बौने न होने पर
 भी वामनका रूप धारण किया था, सौभका नार; हलायुधपना,
 देवशत्रु मुरका वध, गन्धारकन्याका हरण करते समय बलवान्
 राजाओंका रथमें लगाना, सुभद्राहरणमें विजय, और (पञ्च
 पुराणमें प्रसिद्ध) बालाहक और जम्बुमालिके युद्धमें विजय और
 युद्धमें जीत कर इन्द्रके सामने रत्नमवेक (कुण्डल) का लाना-
 इनको तथा और भी बहुतसी भीति उत्पन्न करने वाली घटनाओं

रूपो जगुः स्त्रियः प्रीतिकराणि राजन् । संकर्षणाधोक्षजहर्ष-
णानि चित्राणि चानेककथाश्रयाणि ॥ १५ ॥ कादम्बरीपानमदो-
त्पटस्तु बलः पृथुश्रीः स चुकूर्द रामः । सहस्ततानां मधुरं समं
च सभार्यया रेवतराजपुत्र्या ॥ १६ ॥ तं कूर्दमानं मधुसूदनश्च
दृष्ट्वा महात्मा च मुदान्वितोऽभूत् । चुकूर्द सत्यासहितो महात्मा
हर्षागमार्थं च बलस्य धीमान् ॥ १७ ॥ समुद्रयात्रार्थमथागतश्च
चुकूर्द पार्थो नभलोकवीरः । कृष्णेन सार्धं मुदितश्चुकूर्द सुभद्रया
चैव वरांगयष्ट्या ॥ १८ ॥ गदश्च धीमानथ सारणश्च मधुम्न-
साम्बौ नृप सात्यकिश्च । सत्राजितीसूनुर्ददारवीर्यः सुचारु-
देण्णश्च सुचारुरूपः ॥ १९ ॥ वीरौ कुमारौ निशठोऽम्बुकी च
रामात्मजौ वीरतमौ चुकूर्दतुः । अक्रूरसेनापतिशंकरश्च तथा-

की वे मनोहर रूपवाली स्त्रियों गाने लगीं, अनेक कथाओंसे भरा
हुआ यह विचित्र गाना उन्होंने श्रीकृष्ण और बलरामको मसन्न
करनेके लिए गाया था ८-१५ तदनन्तर परमशोभासंपन्न और
कादम्बरीका पान करनेसे मदमें भरे हुए बलराम अपनी मिय
रेवतराजकी पुत्रीको साथ ले मधुर और समतालसे गाना गाने
लगे ॥ १६ ॥ महान्मा मधुसूदन बलरामजीको गाते देख कर
मसन्न हुए फिर बुद्धिमान कृष्ण बलदेवजीके हर्षको बढ़ानेके लिए
सत्यभामाके साथ अपने आप भी गाना गाने लगे ॥ १७ ॥ उस
समय समुद्रयात्राके लिए आया हुआ मर्त्यलोकमें वीर पुरुष
अर्जुन भी सुन्दर कमर वाली सुभद्राके साथ और कृष्णके साथ
गाना गाने लगा ॥ १८ ॥ हे राजन् ! तदनन्तर बुद्धिमान गद
सारण मधुम्न और साम्ब, सात्राजिती (सत्यभामा) का पुत्र
सुन्दर रूप वाला महाबली चारुदेण्ण, बलरामजीके पुत्र महाबली
वीर निशठ और उन्मुक तथा अक्रूरका सेनापति शंकर तथा
दूसरे भी मधान मधान भीमनांशी गाने लगे ॥ १९ ॥ २० ॥

परे भीमकुलमथानाः ॥ २० ॥ तद्यानपात्रं वष्टये तदानीं कृष्ण-
 मभावेन जनेन्द्रपुत्र । आपूर्णमापूर्णमुदारकीर्ते चुकूर्दयद्भिर्नृप
 भीममुख्यैः ॥ २१ ॥ तौ राससक्तैरतिकूर्दमानैर्यदुपवीरैरमरमकारोः ।
 हर्षान्वितं वीर जगत्तथाभूच्छेमुश्च पापानि जनेन्द्रसूनो ॥ २२ ॥
 देवोतिथिस्तत्र च नारदोऽथ विप्रमिथार्थं मुरकेशिशत्रोः । चुकूर्द
 मध्ये यदुत्तचपानां जटाकलापाङ्गलितौकदेशः ॥ २३ ॥ रास-
 मण्येता मुनिराजपुत्र स एव तत्राभवदममेव । मध्ये च गत्वा स
 चुकूर्द भूयो हेलाधिकारैः सविडम्बितांगैः ॥ २४ ॥ स सत्य-
 भापामथ केशवं च पार्थं सुभद्रां च पलं च देवम् । देवीं तथा रेवत-
 राजपुत्रीं संदश्य संदश्य जहास धीमान् ॥ २५ ॥ ता हासया-
 मास सुधैर्ययुक्तास्तीर्तृत्वायैः परिहासशीलः । चेष्टानुकारैर्हसि-
 हे जनेन्द्रपुत्र । श्रीकृष्णके प्रभावसे गान करने वाले मुख्य मुख्य
 भीमर्षियोंसे गुंजती हुई नौका आगेको बढ़ने लगी ॥ २१ ॥
 हे वीर । देवताओंकी समान मकाश फैलाने वाले रासमें आसक्त
 होकर गाना गाते हुए यदुपवीरोंसे जगत् भी । हर्षमें भर गया
 और हे राजपुत्र । पाप भी शान्त होने लगे ॥ २२ ॥ उस समय
 मुर और केशी दैत्यके नाशक श्रीकृष्णका प्रिय करनेके लिए
 देवताओंके अतिथि नारदभी यादवोंके बीचमें गाना गाने लगे
 उस समय जटायों उनके अर्गों पर बिखरने लगी ॥ २३ ॥
 हे राजपुत्र । वह अप्रमेय मुनि रासके प्रणेत्य बन गए और
 लीलाओंका अनुकरण कर अपने अर्गोंको चला कर रासके
 मध्यमें पहुँच गाने लगे २४ बुद्धिमान् नारदजी सत्यभामाको केशव
 को सुभद्राको अर्जुनको और रेवतराजकी पुत्री देवी रेवतीको देख
 देख कर हँसने लगे ॥ २५ ॥ वह परिहास करनेके स्वभाववाले
 बुद्धिमान् नारदजी अतिधैर्यधारिणी इन स्त्रियोंको, चेष्टाओंका
 अनुकरण करके, मुस्कुरानेका अनुकरण करके और लीलाओं

तानुकारैर्लीलानुकारैरपरैश्च धीमान् ॥ २६ ॥ अभाषितं किञ्चि-
 दिवोपलक्ष्य नादाति नादान् भगवान् मुमोच । हसन् विहासांश्च
 महास हर्षाद्भास्यागमे कृष्णविनोदनार्थम् ॥ २७ ॥ कृष्णाङ्गा
 सातिशयाणि तत्र यथानुरूपाणि ददुर्युवत्यः । रत्नानि वस्त्राणि
 च रूपवन्ति जगत्प्रधानानि नृदेवसूनो ॥ २८ ॥ मान्यानि च
 स्वर्गसमुद्भवानि सन्तानदामान्यतिमुक्तकानि । सर्वतुकान्यंघ्र-
 नर्यस्तदानीं ददुर्हरेरिंगितकालतज्ज्ञाः ॥ २९ ॥ रासावसाने त्वथ
 गृह्य हस्ते महाभुक्तिं नारदमममेयः । पपात कृष्णो भगवान् समुद्रे
 सात्राजितिं चार्जुनमेव चाथ ॥ ३० ॥ उवाच चामेषपराक्रमोथ
 शौनेयमीपत् महसन् पृथुश्रीः । द्विधा कृतास्मिन् पतताशु भूत्वा
 क्रीडा जले नोऽस्तु सहांगनाभिः ॥ ३१ ॥ सरेवतीकोऽस्तु वलो-

की नकल करके इस प्रकार (उन २) अनेक उपायोंसे, हँसने
 लगे ॥ २६ ॥ भगवान् नारदजी (बोलने) गानेकी ओर कुछ
 ध्यान देकर चड़ी जोरसे नाद करने लगे और हास्यका अवसर
 आने पर कृष्णके विनोदके लिए मसझरेपनकी बात कहकर हर्ष-
 पूर्वक हँसने लगे ॥ २७ ॥ हे राजपुत्राकृष्णकी आज्ञासे युवतियों
 ने जगत्मेंके मुख्य २ रत्न रूपवान् वस्त्र अधिकतासे देना आरंभ
 कर दिए ॥ २८ ॥ श्रीकृष्णके इशारे और सगपकी समझने
 वाली स्त्रियोंने (नारदजीको) स्वर्गमें उत्पन्न हुए चन्दन, अति-
 मुक्तक और सन्तान् घृत्त तथा सब ऋतुओंमें होने वाले पुष्प
 लाकर दिये ॥ २९ ॥ अममेय भगवान् विष्णु रासके अन्तमें
 नारद मुनिको हाथसे पकड़ कर सत्यभामाके साथही समुद्रके कूद
 पड़े, तदनन्तर महाशोभायमान अमेय पराक्रमी श्रीकृष्णने मुस्करा
 कर अर्जुनसे और शिनिवंशी सात्यकिसे कहा, कि-आप सब
 भी शीघ्र ही कूद आइये और स्त्रियोंसहित दो भागोंमें बँट कर
 गलक्रीडा करिये ॥ ३० ॥ ३१ ॥ इस समुद्रके जलमें मेरे आधे

धनेता पुत्रा गदीयाश्च सहार्थभैगाः । भैमार्थमेवाथ वलात्मजाश्च
 मत्पत्निः सन्तु समुद्रतोये ॥ ३२ ॥ आज्ञापयामास ततः समुद्रं
 कृष्णः स्मितं प्राञ्जलिनं मतीतः । सुगन्धतोयो भव मृष्टतोय-
 स्तथा भव ग्राह विश्वजितश्च ॥ ३३ ॥ दृश्या च ते रत्नविभूषिता
 तु सा वेलिका भूरथ पत्सुखा च । मनोनुकूलं च जनस्य यत्
 तत् प्रयच्छ विश्वास्पति मत्प्रभावात् ॥ ३४ ॥ भवस्व पेयोप्यथ
 चेष्टपेयो जनस्य सर्वस्य मनोनुकूलः । वैदूर्यमुक्तागणिहेमचिन्ना
 भवन्तु मत्स्यास्त्वयि सौम्यरूपाः ॥ ३५ ॥ पिवस्व च त्वं कम-
 लोत्पलानि सुगन्धसुस्पर्शरसक्षमाणि । षट्पादजुष्टाणि मनो-
 हराणि कीलालवर्णैश्च समन्वितानि ॥ ३६ ॥ मैरेयमाध्वीकसुरा-
 सनानां कुम्भोश्च पूर्णानि स्थपयस्व तोये । जाम्बूनदं पान-

पुत्रोंके और आधे भीमवंशियोंके नेता रेवती और धलदेव वनें,
 और बाकी वचे हुए आधे भीमवंशी और वल्देवजीके पुत्र मेरे
 पक्षमें होजाय ॥ ३२ ॥ उस समय हाथ जोड़ कर मुसकुराते हुए
 समुद्रको विश्वस्त हुए श्रीकृष्णने आज्ञा दी; कि-तुम अब सुगं-
 धित और स्वच्छ जल वाले और ग्राह्रहित होजाओ ॥ ३३ ॥
 तुम मेरे प्रभाववश अपने तटकी भूमिको रत्नोंसे विभूषित दीखने
 वाली और पैरोंको सुखदेने वाली बनादो और तुम मेरे प्रभाव
 को जानते हो, इस लिये जो वस्तु मनुष्योंके मनके अनुकूल हों
 उन सबको दो ॥ ३४ ॥ तुम सबके मनके अनुकूल पीने योग्य
 और यथेष्ट पीने योग्य जल वाले बन जाओ और तुम्हारे मत्स्य
 इस समय मोती मणि और वैदूर्य मणि तथा सुवर्णसे चिभित मनो
 हर रूप वाले होजाय ॥ ३५ ॥ और तुम अपने कमलोंको रक्त
 वर्ण वाले, अच्छी सुगंध, सुन्दर स्पर्श और रसोंसे व्याप्त तथा
 भोरोंसे सेवित होनेके कारण मनोहर बना लो ॥ ३६ ॥ तुम
 मैरेय माध्वी सुरा और आसवोंमे भरे हुए घड़ोंके अपने जलमें

मेघः स रराज राजच्छाहदास्त्रीप्रभगाभिरागः । सौदामिनी-
 गिन्न इवाम्बुनाथो देदीप्यमानो नभसीव मेघः ॥ ४८ ॥ नारा-
 यणश्चैव स नारदश्च सिपेच पत्ने कृन्तारुचिन्हः । वलं सपत्नं
 कृतचारुचिन्हं स चैव पत्नं मधुसूदनस्य ॥ ४९ ॥ हास्यप्रमुक्ते-
 र्जलयन्त्रकैश्च महद्रूपाः सिपिन्नुस्तदानीम् । रागोद्धता वारुणि;
 पानपत्ताः संर्षणाधीनज्ञदेवपत्न्यः ॥ ५० ॥ आरक्तनेत्रा जल-
 मुक्तिसक्ताः स्त्रीणां सपत्नं पुरुपायमाणाः । तेनोपरेशुः सुचिरं
 च भेगा मानं वहन्तो मदनं मदं च ॥ ५१ ॥ अतिप्रसङ्गं तु
 विचिंत्य कृष्णस्तान् वारयामास रथांगपाणिः । स्वयं निवृत्तो
 जलनाद्यशब्दैः स नारदः पार्थसहायवांश्च ॥ ५२ ॥ कृष्णो गि-
 तज्ञा जलयुद्धसंघातज्ञा निवृत्ता दृढमानिनोऽपि । नित्यं तथा नन्द-

जासे आकाशमें अम्बुनाथ मेघ निजलियोंके कड़कनेसे शोभा पाता
 है, इसी प्रकार हे राजर् ! शतहृदो सोकड़ों तालावरूपी स्त्रियोंकी
 मनासे मनोहर समुद्र शोभा पाने लगत ॥ ४८ ॥ अपने पत्नमें
 सुन्दर निन्दोंके करने वाले नारायण और नारदजी मनोहर
 निन्ह वाले दलपर जल छिड़कने लगे और दलदेवजी मधुसूदन
 के पत्न वाली, पर-जल छिड़कनेलगे ॥ ४९ ॥ उस समय रामके
 कारण-बदस्य, हुई और वारुणीके पानसे मत्त हुई श्रीकृष्ण और
 बलदेवजीकी पत्नियें मसन्न होकर हावोंसे और पिचकारियोंसे
 जल छिड़कने लगी ॥ ५० ॥ जलको फेंकनेमें लगे हुए लालर
 नेत्रों वाले भीमवंशी चिरकालके अनन्तर स्त्रियोंके सामने पुरुष
 वनकर गान मद और मदनको धारण कर उन्मत्त होगए ॥ ५१ ॥
 हाथमें चक्रको धारण करने वाले कृष्णने बात बढ़ती देखकर
 उनको रोयदिगा था, और जलके वाजोंका शब्द कर वे अपने
 आप भी नारद और पार्थसहित रुतगए ॥ ५२ ॥ अतिमानी होने
 पर भी यादव कृष्णके इशारेको जानकर जलसंघसे दृढ गए थे,

कराः पिपाणां गियारच तेषां नन्तुः प्रतीताः ॥ ५३ ॥ नृत्या
 वसाने भगवानुपेन्द्रस्तत्याज धीमानथ तोगसंगान् । उत्तीर्य तोगा-
 दनुकूलोपं जग्राह दत्त्वा मुनिसत्तमाय ॥ ५४ ॥ उपेन्द्रमुत्तीर्ण-
 मथाशु दृष्ट्वा भैमा हि ते तत्पजुरेव तोयम् । विविक्तगात्रास्तथ
 यानभूमिं कृष्णाज्ञया ते यपुरममेयाः ॥ ५५ ॥ गथानुगूर्या च
 यथावगृशच यत्सन्नियोगारच तदोपविष्टाः । अन्नानि वीरा बुभुजुः
 प्रतीताः पपुरश्च पेयानि यथानुकूलम् ॥ ५६ ॥ मांसानि पक्वानि
 फलाम्लकानि चुक्रोत्तरेणाथ च दाहिमेन । निष्टप्तशुलाब्जकलान्
 पशुरश्च तत्रोपजहः शुचपोथ सूदाः ॥ ५७ ॥ सुस्विन्नशूल्यान्
 गहिपारश्च धालान्शूलान् सविष्टसघृतावसिक्तान् । घृत्ताम्लसौ
 वर्चलचुक्रपूर्णां पौरोगवोक्त्या उपजहुरेयाम् ॥ ५८ ॥ पौरोग-

तव उन प्रियपुरुषोंको सर्वदा छानन्द देने वाली उनकी पिपाएँ
 विश्वस्त होकर नाचने लगीं ॥ ५३ ॥ नृत्यका अन्त होने पर
 बुद्धिमान् उपेन्द्र भागवान् जलमेंसे निकल आए और जलमेंसे
 निकलनेके अनन्तर उन्होंने मुनिसत्तमको उचित चन्दनदे अपने
 आग भी लपायां ॥ ५४ ॥ श्रीकृष्णको जलसे निकला हुआ देख
 भोमवंशीभी जलमेंसे शीघ्रही निकल आए, तदनन्तर वे पवित्र
 देह वाले अपमेय यादव कृष्णकी आहासे यानभूमिमें चले गए ५५
 तदनन्तर वे सब वीर क्रम अवस्था और संबंधके अनुसार तहाँ
 पर बैठकर निश्चिन्ततासे उचित अन्नको खाने लगे और अपने
 अनुकूल शरवतोंको पीनेलगे ५६ पके हुए गांस, अम्लतायुक्त
 फल, जिनपर चूक और आमका रस गिचोड़ा गया था, और
 शूल पर रख कर पकाये हुए गांसके खण्डोंको पवित्र रसोइमें
 लाने लगे ५७ घृतमें डालकर पकाये हुए काला नमकपड़े अम्ल-
 वेत और चूकसे भरे हुए शूनोपर रखकर गरम किये हुए फटों
 को रसोइमें रसोइयोंकी रीतिसे परोसने लगे ५८ रसोइयोंकी

गात्रपट्टया तृतीया रामश्च जनार्दनश्च । अर्धोर्वशी चारुविशाल-
नेत्रा हेमा च राजन्नथ मिश्रकेशी ॥ ७० ॥ तिलोत्तमा चाप्यथ
मेनका च एतास्तथान्याश्च हरिप्रियार्थम् । जगुस्तथैवाभिनयं
च चक्रुरिष्टैश्च कापैर्मनसोनुकूलैः ॥ ७१ ॥ ता वासुदेवेष्वनु-
रक्तचित्ताः स्वगीतनृत्याभेनयरुदारैः । नरेन्द्रसूनुो परितोषितेन
ताम्बूनयोगाश्च वराप्सररोषिः ॥ ७२ ॥ तदागताभिर्नृवराहनास्तु
कृष्णोप्लवा मानमयास्तथैव । फलानि गन्धोत्तमवन्ति वीराश्चा-
लिक्यगान्धर्वमथाहृत च ॥ ७३ ॥ कृष्णोच्छ्रया च त्रिदिवान्नुदेव
अनुग्रहार्थं भुवि मानुषाणाम् । स्थितं च रम्यं हरितेजसेव प्रयोग-
यापास स रौक्मिणेयः ॥ ७४ ॥ द्वालिक्यगान्धर्वमुदारबुद्धिस्तै-
नेव ताम्बूनमथ गयुक्तम् । मघोजितं पञ्चभिरिन्द्रनुज्यैश्चालिक्य-

कमर वालीके अभिनय करने पर श्रीकृष्ण और बलराम ममन्न
हुए हे राजन् ! तदनन्तर सुन्दर और विशाल नेत्रों वाली उर्वशी
हेमा मिश्रकेशी तिलोत्तमा और मेनका तथा दूमरी अप्सराएँ
मनके अनुकूल मनोहर गानोंको गाने लगीं और अभिनय करने
लगीं ॥ ७० ॥ ७१ ॥ हे राजपुत्र ! वासुदेवमें नित्तको लगाने
वाली उन श्रेष्ठ अप्सराओंने अपने गीत नृत्य और बड़े २ अभि-
नय करके (सबका) मसन्न किया और यादवोंको पान देकर
भी मसन्न किया गया ॥ ७२ ॥ हे मनुष्यश्रेष्ठ ! कृष्णकी
स्वर्गसे आनेवाली अप्सराओंके द्वारा पाना पीरोंने छ लिक्य
गंधर्व सुना और उत्तम गंध वाले फल पाये ॥ ७३ ॥
हे नरदेव ! प्रद्युम्नने कृष्ण ही इच्छासे पृथिवीके मनुष्यों पर
अनुग्रह करनेके लिये यह मंत्र रमणीय (गाना) यहाँ होरहा
है, इसघातका हरिके तेजकी समान (प्रयोग किया) कहा ७४
इस प्रकार उस उदार बुद्धिने द्वालिक्य गंधर्वका (नर्तन कर)
पान चट्टे, कृष्ण बलदेव प्रद्युम्न अग्निकृद् और साम्ब इन पांच

गिष्टं सततं नराणाम् ॥७५॥ शुभाग्रहं वृद्धिकरं प्रशस्तं मंगलय-
 नेनाथ तथा यशस्वम् । पुण्यं च पुष्ट्यभ्युदयानहं च नारायण-
 स्वेष्टमुदारकीर्तिः ॥ ७६ ॥ भराग्रहं धर्मभरानहं च दुःस्वप्ननाशं
 परिकीर्त्यमानम् । करोति पापं च तथा निदन्ति शृण्वन् सुरावास
 गतो नरेन्द्रः ॥ ७७ ॥ छालित्यगान्धर्वमुदारकीर्तिर्मेने । कलैकं
 दिवसं सहस्रम् । चतुर्गुणानां नृप रेवतोथ ततः पट्टता च कुमार-
 जातिः ॥ ७८ ॥ गान्धर्वजातिश्च तथा पश्यापि दीपाद्यथा दीप-
 शनानि राजन् । विवेद कृष्णश्च स नारदश्च प्रद्युम्नमुख्यैर्नृप
 भेष्टमुख्यैः ॥७९॥ विज्ञानमेतद्वि परे यथावदुद्देशमात्राच्च जना-
 स्तु लोके । जानन्ति छालित्यगुणोदयानां तोयं नदीनामथवा
 समुद्रे ॥८०॥ इतुं समर्गो हिमवान् गिरिर्वा फलाग्रतो वा गुण-

इन्द्रकी समान व्यक्तियोंके द्वारा जोड़ा हुआ छालित्य मनुष्योंको
 सदा इष्ट है ७५ शुभ करने वाला वृद्धि करने वाला प्रशसनीय,
 मंगलमय, यश देने वाला पुष्टि और अभ्युदयको देने वाला है
 और महाकीर्तिवान् नारायणको इष्ट है ७६ यह कीर्तन करने
 पर भारका दूर कर धर्मके भारको लाता है, और इसके सुननेसे
 राजाके पाप नष्ट होजाते हैं और वह देवताओंके आवासमें पहुँच
 जाता है ७७ उदारकीर्ति राजा रेवतको इस छालित्य गान्धर्व
 गानेको सुननेपर चारों घुर्गोंके सहस्रों दिन एक दिनकी समान
 तीन गण थे, उस ही छालित्य गानेसे यह कुमारजाति आदि
 (गंधर्वांके भेद) उत्पन्न हुए हैं ७८ हे राजन् ! जैसे दीपकसे
 अनेक दीपक जलने जाते हैं इसी प्रकार गंधर्वोंकी जाति फैल
 गई है, प्रद्युम्न आदि मुख्य २ भीषणशिंगोंसे श्रीकृष्णने और
 नारदजीने इसको जाना है ७९ जैसे नदी वा समुद्रमे (थोड़ासा)
 जल निकाल लिया जाय, इसीप्रकार संसारके दूसरे मनुष्य इस
 छालित्यके गुणोदयके कुछ २ जानते हैं ८० छालित्यके गुण

तोथ नरपि । शक्यं न छालिकयमृते तपोभिः स्थाने विधानान्यथ
 मूर्च्छनासु ॥८१॥ षड्ग्रामरागेषु च तत्र कार्यं तस्यैकदेशावयवेन
 राजन् । लेशाभिधानां सुकुमारजातिं निष्ठां सुदुःखेन नराः प्रयांति
 छालिकयगान्धर्वगुणोदयेषु ये देवगन्धर्वमहर्षिसंघाः । निष्ठां प्रयां-
 तीत्यवगच्छ बुद्ध्या छालिकयमेवं मधुसूदनेन ॥ ८३ ॥ भौगोत्त-
 मानां नरदेव दत्तं लोकस्य चानुग्रहकाम्ययैव । गतं प्रतिष्ठामम-
 रांपगेयं बाला युवानश्व तथैव वृद्धाः ॥ ८४ ॥ क्रीडन्ति भैमाः
 प्रसवोत्सवेषु पूर्व तु बाला समृदावदन्ति । वृद्धाश्च पश्चात् प्रति-
 मानयन्ति स्थानेषु निन्वं प्रतिमानयन्ति ॥८५॥ मर्त्येषु मर्त्यान्
 यदचोतिवीराः स्ववंशधर्मं समनुस्मरन्तः । पुरातमं धर्मविधान-
 तज्ज्ञाः प्रीतिः प्रमाणं न वयः प्रमाणम् ॥८६॥ प्रीतिप्रमाणानि

और फलको भगवान् हिमवान् पर्वत ही जानता है, तपके बिना
 छालिकय नहीं जाना जासकता, हे राजन् ! इसके एक देशको
 जाननेसे ही षड्ग्राम वाले रागोंका और मूर्च्छनाओंका यथा योग्य
 प्रयोग किया जासकता है, मनुष्य सुकुमारजातिको गाते हुए बड़ी
 कठिनतासे छालिकयके लेशमात्र अंशको पाते हैं ८२ छालिकय
 गान्धर्वके गुणोंके देवता महर्षि और गन्धर्व ही पाते हैं, छालिकय
 ऐसा है इसवातको विचार कर मधुसूदनने संसार पर अनुग्रह
 करनेके लिए हे नरदेव ! भीमवंशियोंको दिया था, फिर इस
 देवतातांके गान योग्य गानेकी प्रतिष्ठा होने लगी, बालक वृद्ध
 और युवा जननोत्सवमें क्रीडा करने पर बालक पहिले इसकी
 प्रशंसा करने लगे, फिर वृद्ध भी इसको अच्छा बताने लगे
 और स्थान २ पर इसकी प्रशंसा करने लगे ॥८३-८५॥ अपने
 प्राचीन वंशधर्मका स्मरण करते हुए अतिबली यादव मनुष्योंके
 प्रति प्रीतिसे ही प्रमाण मानने से अबस्थासे प्रमाण नहीं
 मानते थे ८६ वे दर्शाहंशी पित्रनायें प्रीतिका प्रमाण मानते थे

हि सौहृदानि भीतिं पुरस्कृत्य हि ते दशार्हाः । वृष्णपञ्चकाः पुत्र-
सुखा यभूवुर्विसर्जिताः केशिनिनाशनेन ॥ ८७ ॥ स्वर्गं गता-
श्चाप्सरसां समृहाः कृत्वा प्रमाणं मधुकसशत्रोः । महृष्टरूपस्य
सुहृष्टरूपा निनोदिताः केशिनिपूदनेन ॥ ८८ ॥ छ

इति श्रीमहाभारते निलेपु हरिः शौ चिष्णुपर्वणि भानुमतीहरणे
छालिकपक्रीडापर्यायं नामैकोनवत्तितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥

वैशम्पायन उवाच तेषां क्रीडाप्रसक्तानां यदूनां पुण्यकर्मणाम् ।
छिद्रमासाद्य दुर्बुद्धिर्देवशत्रुर्दुरासदः ॥ १ ॥ कन्यां भानुमतीं नाम
भानोर्दुहितरं नृप । जहारात्मवधाकांक्षी निकुम्भो नाम दानवः २
अन्तर्हितो मोहयित्वा य नां प्रमदाजनम् । मायावी मागया
राजन् पूर्ववैरमनुस्मरन् ॥ ३ ॥ भ्रातुर्हि वज्रनाभस्य तस्य कन्या
प्रभावती । मधुग्नेन हता वीर वज्रनाभस्तथा हतः ॥ ४ ॥ भानो-

प्रीतिके कारण वे दर्शाह वृष्णि और अंधक, पुत्रोंकी समान सुख
भोगते थे, श्रीकृष्णने ऐसे व्यक्तियोंको अब विदा कर दिया ८७
मधु और कंसके शत्रु श्रीकृष्णके वचनको प्रमाण मान कर
अप्सरसोंकी टोली भी स्वर्गको चली गई, प्रसन्नतामें रहने वाले
केशिनिपूदने उनको भी प्रसन्न किया था ॥ ८८ ॥ नवासीवाँ
अध्याय समाप्त ८६

वैशम्पायनजीने कहा; कि-हे राजन् ! देवताओंके शत्रु दुरा-
सद दुर्बुद्धि, और अपना वध चाहने वाले निकुम्भ नामक दानव
ने पुण्य कर्म करने वाले यादव क्रीड़ा करनेमें लग रहे हैं, इस
छिद्रको देख कर भानुनामक यादवकी भानुमती नाम वाली पुत्री
को हर लिया ॥ १ ॥ २ ॥ हे राजन् ! वह मायावी राजस पहिले
वैरका स्मरण कर यादवोंकी छियोंको मोहमें डाल कर अन्त
र्धान होगया ॥ ३ ॥ उस (दानव) के वज्रनाभ नाम वाले
दानवकी प्रभावती नामवाली पुत्री थी, हे वीर ! उसको मधुग्ने

रेव तथारण्ये वसत्यवसरेण हि । अस्वाधीने दुराधर्षं छिद्रज्ञो
दानवाध्रपः ॥ ५ ॥ कन्यापुरे महानादः सहसा समुपस्थितः ।
तस्यां द्विगंत्वां कन्यायां रुदन्त्यां सगितिंजयः ॥ ६ ॥ वसुदेवा-
हुको वीरौ दंशितौ निर्गतावुभौ । आर्तनादमुपश्रुत्य भानोः
कन्यापुरे तदा ॥ ७ ॥ न दृष्टिगोचरौ तौ तु ददृशातेऽपकारि-
णम् । तथैव दंशितौ यानौ यत्र कृष्णो महाबलः ॥ ८ ॥ श्रुतार्थः
स्वं विमानं तदारुरोह जनार्दनः । पार्थेनं संहतस्तार्च्य नागशत्रु-
परिदमः ॥ ९ ॥ रथी त्वमनुगच्छेति संदिश्य मकरध्वजम् ।
त्वरेति गरुडं वीरः संदिदेश च काश्यपम् ॥ १० ॥ वज्रं नगरमायातं
निकुम्भं रणदुर्जगम् । पार्थकृष्णौ महात्मानावासदेतुररिदमा ११

ने हर लिया था और वज्रनाभकी मार डाला था ॥ ४ ॥ वह
दानव भानुके (द्वारकामें बने हुए उग) बगमें ही रहता था,
(क्रीड़ामें आसक्त होनेके कारण) जब वह घर स्वामीरहित
होरहा था, उस समय छिद्रको जानने वाले दुराधर्ष दानवने
(भानुकी कन्याको हर लिया) ॥ ५ ॥ हे समितिञ्जय ! उस
रोती हुई कन्याका हरण करने पर कन्यापुरमें एक साथ ही दुन्द
पड़ने लगा ॥ ६ ॥ आर्त नादों सुन कर वसुदेव और उग्रसेन
ये दोनों वीर कवच पहन कर भानुके कन्यापुरमें गए ॥ ७ ॥
परन्तु जब चारों देखने पर भी उन्हें अपराध करने वाला नहीं
दिखाई दिया, तब वे कवच पहिन कर तहाँको चले, जहाँ बल-
देव और कृष्ण थे ॥ ८ ॥ अरिदमन जनार्दन इस बातको सुनते
ही सर्पोंके शत्रु अपने विमान गरुड पर सवार हो गए और साथ
में अर्जुनको भी बैठा लिया ॥ ९ ॥ उन्होंने प्रद्युम्नमे कहा; कि-
तुम रथमें बैठ कर चलो, फिर उन वीरने काश्यपपुत्र गरुडको
सदेशा दिया, कि- अब आप फुर्ती करिये ॥ १० ॥ तदनन्तर
महान्मा अर्जुन और कृष्ण वज्रनगरमें घुसते हुए रणदुर्जय

मद्युम्नेश्च महातेजा गायिनां प्रवरो नृप । निकुम्भश्चाथ तान्
 दृष्ट्वा त्रिशात्मानपथाकरोत् ॥ १२ ॥ तान् सर्वान् योषयामास
 निकुम्भः प्रहसन्निव । बहुकण्टकगुर्वीभिर्गदाभिरमरोपमः । १३ ॥
 सव्येनालंघ्य हस्तेन कन्यां भानुगतीं नृप । दक्षिणेनाथ हस्तेन
 गदया माहरत् पुनः ॥ १४ ॥ कन्यार्थं न च कृष्णौ वा कामो
 वा नृपसत्तम । निर्दग्ं प्रहरन्ति स्य निकुम्भे च महासुरे ॥ १५ ॥
 समर्थस्ते महात्मानः शत्रुं हन्तुं दुर्गासदाः । निशश्चसुर्नरपते दया-
 भारानपीडिताः ॥ १६ ॥ श्रेष्ठो धनुष्पतां पार्थः सर्वथा कुशलो
 युधि । नागोष्ट्रविधिना दैत्यं शरपंक्या जघान ह ॥ १७ ॥
 ते तु वैतस्तिकैर्वाणैर्विधिधान् दानवान् युधि । न कन्यां कल्पा

निकुम्भ दानवके पास पहुँच गए ॥ ११ ॥ हे राजन् ! माया
 करने वालोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी मद्युम्न भी (उसके पास पहुँच
 गया) निकुम्भने उनको देख कर अपने तीन शरीर बना लिये १२
 तद्गन्तर देवताकी सपान निकुम्भ मुस्कराया और अनेक काँटों
 से भरी भारी २ गदाओंसे उन तीनोंके साथ लड़ने लगा १३
 वह चायें हाथमे कन्याको पकड़े रख कर सीधे हाथसे गदाका
 प्रहार करने लगा ॥ १४ ॥ परन्तु हे राजन् ! कन्याके कारण
 कृष्ण और अर्जुन तथा मद्युम्न महाराजस निकुम्भ पर निर्दय
 होकर प्रहार नहीं कर सकते थे ॥ १५ ॥ हे नरपते ! वे दुरासद
 महात्मा शत्रुको मारनेके लिए समर्थ होने पर भी दयाके भारसे
 पीड़ित होनेके कारण श्वास लेने लगे ॥ १६ ॥ युद्धमें सर्वथा
 कुशल धनुष पारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन सर्पोष्ट्र विधिसे बाणोंसे
 असुरको ही मारने लगा (नागोष्ट्रविधि—अजगरसे लपेटे हुए
 उष्ट्रको देखकर जैसे धनुर्धर सर्पको ही मारता है ऊँटको नहीं
 मारता है, तिस प्रकार अर्जुन कन्यापर आँच न आने देकर
 राजसको ही मारनेलगा) १७ हे महीपते ! वे तीनों पुरुष अपनी

युक्त्या शिञ्जया च गहीयते ॥१८॥ ततः स कन्यया सार्धं तत्रै-
वान्नरधीयत । आसुरीमाश्रितो मार्या न च तां वेत्ति कश्चन १९
तं कृष्णो- रीक्षिणोऽथ च पृष्ठतोऽनुपयुस्तदा । हरिः शकुनो
भूत्वा तस्यावथ महासुरः ॥२०॥ तं वायुः पुनरेवाथ वीरो भूयो
धनञ्जयः । द्यौतन्तिकैर्मर्मभिः श्रुः कन्यां रत्नगताडयत् ॥२१॥
स इमां पृथिवीं कृत्स्नां सप्तद्वीपां महासुरः । वभ्रामानुगतश्चैव
तैर्वैरैरिर्मर्दनः ॥ २२ ॥ गोकर्णस्योपरिष्ठात्तु पर्वतस्य महा-
सुरः । पपात वेलां गताः पुलिने सह कन्यया ॥ २३ ॥
न देवा नामुराश्चापि लंघयन्ति तपोधनाः । गोकर्णं तेजसा युतं
महादेवस्य भारत ॥२४॥ एतदन्तरमासाद्य मधुम्नः शीघ्रविक्रमः ।
कन्यां भानुमतीं भीमो जग्राह रणदुर्जयः ॥२५॥ असुरः सोर्दितो

कला युक्ति और शिञ्जासे विलस्त भरके बाणोंसे दैत्यको मारने
लगे और कन्यापर आँच नहीं आनेदेते थे १८ तदनन्तर वह
आसुरी मायाका आश्रय लेकर कन्यासहित अन्तर्धान होगया,
परन्तु उम मायाको कोई नहीं जानता था १९ श्रीकृष्ण अर्जुन
मधुम्न भी उसके पीछे २ ही चले तब वह असुर हरि पत्नी
चन कर उद्वेगया २० तदनन्तर धनञ्जय वीर अर्जुन फिर
कन्याको वचा कर वितस्न नामक मर्मभेदी बाणोंसे रात्नसको
मारने लगा २१ वह अरिर्मर्दन रात्नस उन वीरोंके पीछे पढ़ने
पर इस सात द्वीप वाली पृथिवी पर भागता फिरा २२ तदन-
न्तर वह महारात्नस गोकर्णपर्वतके ऊपर गङ्गातीके तटपर रतीमें
गिर पड़ा २३ हे परमवंशी राजन् ! महादेवजीके तेजसे रक्षित
गोकर्ण पर्वतको रात्नस देवता और तपोधन भी नहीं लाँघ
सकते २४ इनी चीनमें रणदुर्जय भीमवंशी कुनीसे पराक्रम
करने वाले मधुम्नने नहीं आकर कन्याको छीन लिया २५ हे
राजन् ! इसी साथ श्रीकृष्ण और अर्जुनने उस दैत्यको बाणोंसे

राजन् कृष्णाभ्यां निशितैः शरैः । त्यक्त्वाथोत्तरगोकर्णं निकुंभो
 दक्षिणां दिशम् । जगाम पृथुतो यातौ कृष्णौ तार्क्ष्यगतौ तदा २६
 विवेश पट्पूरं चैव ज्ञातीनामालयं तदा । तत्र वीरौ गुहाद्वारि
 कृष्णौ रात्रौ तदोपतुः ॥ २७ ॥ रौक्मिण्येयोऽपि कृष्णेन संदिष्टो
 द्वारकापुरीम् । अनयद्भानुतनयां महृष्टेनांतरात्मना ॥ २८ ॥ नयि-
 त्वा चापयां वीरः पट्पूरं दानवाकुलम् । ददर्श च गुहाद्वारि
 कृष्णौ भीमपराक्रमी २९ ऊपतुर्द्वारमाक्रम्य पट्पुरस्य महावली
 कृष्णौ प्रद्युम्नसहिनीं निकुम्भवधकांतिणौ । ततोऽनन्तरमेतस्माद्
 विलादतिवलयस्तदा । निर्जगाम वली योद्धुं निकुम्भो भीम
 विक्रमः ॥ ३१ ॥ तस्य निर्गच्छतस्तस्माद् विलात् पार्थो विशां-
 पते । रुरोध सर्गतो मार्गं शरैर्गाण्डीवनिस्तृतैः ॥ ३२ ॥ सोभि-

घायल क्रिया तब वह दैत्य पीडित हो उत्तरगोकर्णको छोड़
 दक्षिण दिशा की ओर भाग गया, उस समय गरुड पर सवार
 कृष्ण और अर्जुन भी उसके पीछे २ दौड़े ॥ २६ ॥ उस समय
 वह दैत्य अपनी जातिवालोंके घर पट्पुरमें घुस गया, तब वीर
 दोनों कृष्ण रात भर उस गुहाके द्वार पर रहे ॥ २७ ॥ और
 श्रीकृष्णके आज्ञा देने पर प्रद्युम्न भानुकी पुत्रीको लेकर मनमें
 प्रसन्न होता हुआ द्वारकापुरीको चला गया ॥ २८ ॥ वह वीर
 दानवोंके स्थान पट्पुरमें जाकर फिर आया तो उसने गुहाके
 द्वार पर भयंकरपराक्रमी श्रीकृष्ण और अर्जुनको देखा ॥ २९ ॥
 निकुम्भका वध चाहने वाले महावली कृष्ण और अर्जुन तथा
 प्रद्युम्न पट्पुरके द्वारको रोक कर पड़े हुए थे ॥ ३० ॥ इसी समय
 भयंकर पराक्रमी अतिवली बलवान् निकुम्भ लड़नेकी इच्छासे
 उस विलमेंसे निकलने लगा ॥ ३१ ॥ हे राजन् ! विलमेंसे निक-
 लना चाहने वाले निकुम्भके मार्गको अर्जुनने गाण्डीवधनुषसे
 बाण छोड़ कर चारों ओर से रोक दिया ॥ ३२ ॥ तब बल-

सृत्य गदां घोरासुत्रम्य बहुकण्टकाम् । शिरस्यताडयत्योर्थ
 निकुम्भो बलिनाम्बरः ॥ ३३ ॥ अदृष्टेनाहतो वीरः शिरस्यथ
 सुगोह सः । गदयाभिहते पार्थे रक्तं वगति मुह्यति । हसित्वा
 सोऽसुरो दृप्तो रौन्निगणेष्यताडयत् ॥ ३४ ॥ तं प्राङ्मुखमुखं वीरं
 मायावी मायिनां वरम् । अदृष्टेनाहतो वीरः शिरस्यथ सुगोह
 सः ॥ ३५ ॥ तथागतौ तु दृष्ट्वा तौ मुह्यमानौ सुताडितौ । अभि-
 दुद्धान गोविन्दो निकुम्भं क्रोधमूर्च्छितः ॥ ३६ ॥ कौमोदकीं समु-
 द्रम्य गदपूर्वोद्भवो गदाम् । तावन्येन्यं दुराधर्यो गर्जतावभिपे-
 ततुः ॥ ३७ ॥ परावतगतः शक्रः सर्वैर्देवगणैः सह । ददर्श तन्गहा-
 युद्धं घोरं देवासुरं तदा ॥ ३८ ॥ दृष्ट्वा देवान् हृषीकेशश्चित्रै-
 र्युद्धैरिन्दपः । इष्ये दानवं हंतुं देवानां हिनकाम्यया ॥ ३९ ॥

यानोंमें श्रेष्ठ निकुम्भने क्रूद कर पार्थके गस्तक पर अनेक कांटों
 वाली भयंकर गदा उठा कर गारी ॥ ३३ ॥ उस रान्तसने अदृश्य
 होकर वीर पार्थके शिर पर महार किया था अतः वह मूर्च्छित
 होगए, जब पार्थ गदासे पिठ मुलसे रक्त ओरुकर वेहोश होगए,
 तब उस उद्धत दैत्यने हँस कर मद्युम्नको भी पीटा ॥ ३४ ॥ उस
 मायावी रान्तसने पूर्वकी ओर मुख करके खड़े हुए माया करने
 वालोंमें श्रेष्ठ मद्युम्नके शिर पर भी अदृश्य होकर महार किया
 था, तब वह वीर भी वेहोश होगए ॥ ३५ ॥ उन दोनों वीरोंको
 ताडना पाकर गोहिा होते देख मुकुन्द क्रोधसे मूर्च्छित होकर
 निकुम्भकी ओर दौड़े ॥ ३६ ॥ गदसे पहिले उत्पन्न हुए श्रीकृष्ण
 अपनी कौमोदकीको गदाको उठा कर दौड़े थे, वे दोनों दुराधर्य
 दहाड़ते हुए भिड़ गए ॥ ३७ ॥ उस समय परावत रायी पर
 गन्धार इन्द्र और सब देवता उस महाभयंकर देवासुर संग्रामको
 देखने लगे ॥ ३८ ॥ अरिदमन श्रीकृष्ण देवताओंको देख उनका
 प्रिय करने की इन्शामे विचित्र युद्ध करके दानवको मारना चाहने

स पण्डलानि चित्राणि दर्शयामास केशवः । कौमोदकी, महा
 बाहुर्लीलापन्युद्धकोविदः ॥ ४० ॥ तथैवासुरमुख्योऽपि गदां
 तां बहुकंटकाम् । शिलया भ्रमयानोऽथ मंडलानि चचार ह ४१
 वृषभाशिव गर्जन्ती वृंहंताशिव कुंजरौ । इपितातरमासाद्य पुद्गी
 शालावृकाशिव ॥ ४२ ॥ आजयान निकुम्भस्तु गदया गदपूर्व-
 जम् । स्पष्टाष्टघटया वीरनादं सुरत्वातिदारुणम् ॥ ४३ ॥
 तत्कालमेव कृष्णोऽपि भ्रामयित्वा महागदाम् । निकुम्भमूर्धनि
 तदा पातयामास भारत ॥ ४४ ॥ अथष्टभ्य सुहृत् त्व हरिः कौमोदकीं
 गदाम् । तस्थौ जगद्गुरुर्ध्रीमान् सुगोह पतितः क्षितौ ॥ ४५ ॥
 हाहाभूत् जगत् सर्वं तत्कालगवत्तदा । तथागते वासुदेवे नरदेव
 महात्मनि ॥ ४६ ॥ आकाशगङ्गातोयेन शीतेन च सुगन्धिना ।
 सिपेचामृतगिश्रेण कृष्णं देवेश्वरः स्वयम् ॥ ४७ ॥ नूनमास्मे-

लगे ॥ ३६ ॥ उस समय युद्धचतुर महाभुज श्रीकृष्ण अपनी
 कौमोदकी गदाको घुमाकर विचित्र पैतरे दिखलाने लगे ॥ ४० ॥
 इसी प्रकार वह मुख्य असुर भी बहुतसे कंटों बाली उस गदा
 को घुमाता हुआ सीखे हुए पैतरोंको दिखाने लगा ॥ ४१ ॥
 वेलोंकी समान रंभाने हुए और हाथियोंकी समान चिधाड़ते हुए
 वे दोनों वीर सभामें पहुँच कर भेड़ियोंकी सगान कोषमें भर
 गए ॥ ४२ ॥ हे वीर ! उस समय निकुम्भने अति दारुण नाद
 करके स्पष्ट आठ घटों बाली गदाका गदके बड़े भाई श्रीकृष्ण
 पर प्रहार किया ४३ हे भारत ! इसी समय कृष्णने भी महागदा
 को घुमा कर निकुम्भ पर प्रहार किया ४४ उस समय कृष्ण सुहृत्
 भर तक तो कौमोदकी गदाको पकड़ कर खड़े रहे, फिर वह जगद्
 गुरु मूर्च्छित हो पृथ्वीमें गिर पड़े ४५ महात्मा वासुदेवनी ऐसी
 दशा होने पर उस समय सारे संसार में हाहाकार मच गया ४६
 देवेश्वर अपने आप कृष्णके ऊपर अमृत मिले हुए शीतल और

च्छया कृष्णस्तथा चक्रे सुरोत्तमः । को हि शक्तो महात्मानं युद्धे
 मोहयितुं हरिम् ॥४८॥ कृष्णः प्रत्यागतप्राणश्चक्रमुद्यम्य भारत ।
 प्रतीच्छेति दुरात्मानमुवाच रिपुनाशनः ॥ ४९ ॥ निकुम्भोप्यति-
 गायावी उत्पपात दुरासदः । शरीरं तत् परित्यज्य न तु तं वेत्ति
 केशवः ॥५०॥ मुमूर्षति मृतो वायमिति मत्वा जनार्दनः । ररत्त
 स्मरमाणोऽथ वीरो वीरव्रतं विभो ॥ ५१ ॥ अथ प्रद्युम्नकौंतेया-
 वागतौ लब्धचेतनौ । स्थितौ नारायणाभ्याशो निकुम्भवधनिश्चितौ
 प्रद्युम्नोप्यथ मायावी विदितः कृष्णमव्रवीत् । निकुम्भस्तात
 नास्त्यत्र गतः क्वापि सुदुर्मतिः ॥ ५३ ॥ प्रद्युम्नेनैवमुक्ते तु तन्न-
 नाश कलेवरम् । मजहासाथ भगवानर्जुनेन सह प्रभुः ॥ ५४ ॥

सुगन्धित आकाशगङ्गाके जलको छिड़कने लगे ॥ ४७ ॥ देवताओं
 में कृष्णने ऐसा अपनी इच्छासे ही किया था कि—ऐसा कौन
 व्यक्ति है, जो युद्धमें कृष्णको मोहित कर सकता है ॥ ४८ ॥
 हे भरतवंशी राजन् ! फिर श्रीकृष्णमें जब प्राण आगम्य तब उन
 अरिनाशनने अपने चक्रको उठा कर कहा, कि—तू इस दुरात्मा
 का संहार कर ॥ ४९ ॥ परन्तु निकुम्भ बड़ा मायावी था; इस
 लिये वह दुरासद राजस अपने शरीरको छोड़ कर उड़ा, परन्तु
 श्रीकृष्ण इस बातको न जान सके ५०हे प्रभो ! यह दैत्य गरना
 चाह रहा है, वा मर गया है, यह समझ कर वीरव्रतका स्मरण
 कर उसकी रक्षाकी अर्थात् उस गिरे हुए राजसको न मारा ५१
 इसी समय प्रद्युम्न और कुन्तीपुत्र अर्जुन भी हीश आने पर निकुम्भ
 के वधका निश्चय करके नारायणके समीप आकर खड़े हो
 गए, ॥ ५२ ॥ प्रद्युम्न भी मायावी थे अत एव उन्होंने सब बात
 जान कर कृष्णसे कहा, कि हे तात ! निकुम्भ यहाँ नहीं है, वह
 दुर्मति कहींका चला गया है ॥ ५३ ॥ प्रद्युम्नके इस प्रकार कहते
 पर वह शरीर नष्ट होगया, उस समय अर्जुन और प्रभु श्रीकृष्ण

तदायुतसहस्राणि निकुम्भानां जनानिष । ददृशुस्ते ततो वीराः
 जित्तौ दिवि च सर्वतः ॥ ५५ ॥ सहस्राण्येव कृष्णं तु तथा पार्थ
 मरिन्दमः । रौक्मिण्येवं तथा वीरं तदद्भुतमिवाभवत् ॥ ५६ ॥
 पाण्डवस्य धनुः केचित् केचिदस्य महाशरान् । अन्येस्य जघृहु-
 र्हस्तावन्ये पादौ महासुराः ॥ ५७ ॥ एवं ग्रहाय तं वीरमममंस्ते
 विहायसि । पार्थानामपि कोटयस्तु शृहीतानां तद्राभवन् ॥ ५८ ॥
 नान्तं ददर्श कृष्णश्च कार्त्विणश्च रिपुनाशनौ । विच्छिन्नन्तौ शरै-
 र्वीरौ निकुम्भं पार्थवजित्तौ ॥ ५९ ॥ एकैरुस्तु द्विराच्छिन्नो द्वेषा
 भवति भारत । दिव्यज्ञानस्तदा कृष्णो भगवाननुदृष्टवान् ॥ ६० ॥
 निकुम्भं तत्त्वतश्चापि ददर्श मधुसूदनः । स्रष्टारं सर्वमायानां हतारं
 फाल्गुनस्य च ॥ ६१ ॥ स चक्रेण शिरस्तस्य चकर्तासुरसूदनः ।

हैंसे ५४ हे राजन् ! इसके अनन्तर उन वीरोंको पृथिवीमें और
 आकाशमें चारों ओर लाखों निकुम्भ दीखने लगे ॥ ५५ ॥
 हे अरिन्दमन! उसके सहस्रों शरीरोंने अर्जुनको कृष्णको और वीर
 रुक्मिणीनन्दनको (घेर लिया) यह अद्भुत बात हुई ॥ ५६ ॥
 किन्हींने पाण्डवके धनुषको किसीने उसके बड़े २ बाणोंको और
 बहुतसे दूसरे राक्षसोंने उसके हाथ पैरोंको पकड़ लिया ॥ ५७ ॥
 वीर पाण्डवको इस प्रकार पकड़ कर वह आकाशमेंको उड़गए
 उस समय सै रुड़ों पकड़े हुए अर्जुन (भी) दिलाई देने लगे ५८
 अर्जुनसे रहित हुए वीर कृष्ण और मधुसूदन बाणोंसे काटने पर
 भी निकुम्भका अन्त न पासके ५९ हे भारत ! मत्येक एक निकुम्भ
 काटने पर दो होजाता था उस समय भगवानने अपनी दिव्य
 दृष्टिसे उसको जाननेका प्रयत्न किया ६० उस समय मधुसूदनने
 सब मायाओंको रचने वाले और पार्थको चुराने वाले निकुम्भ
 को ठीक ६ पहिचान लिया ६१ तब असुरोंका नाश करनेवाले
 भूत भविष्य और वर्तमानरूप हरिने सब प्राणियोंके सापने चक्र

पश्यतां सर्वभूगानां भूतभव्यगत्रो हरिः ॥ ६२ ॥ स सुक्त्वा
 फाल्गुनं राजंश्चिन्ने शिरसि मारत । पपातासुरमुख्योथ द्विन्न-
 मूल इव द्रुमः ॥ ६३ ॥ अथाक्लाणगतं पार्थ पतमानं विहायसः ।
 कृष्णवाक्येन जग्राह कार्त्विणर्वियत्ति मानद ॥ ६४ ॥ निकुम्भे
 पतिते भूमौ समाशवास्य धनञ्जयम् । जगाम द्वारकां देवः पार्थ-
 कामसपन्वितः ॥ ६५ ॥ सभियाश्च-दशार्होश्च द्वारकां मुदितो विश्वः ।
 नारदं च महात्मानं ध्वन्द्वे यदुनन्दनः ॥ ६६ ॥ नारदोऽथ महा-
 तेजा भानुं यादवमब्रवीत् । भानो मा कार्पापिन्युं त्वं श्रुमतां
 भैमनन्दन ॥ ६७ ॥ क्रीडन्त्या रैवतोद्याने दुर्वासाः कोपितो-
 ऽनया । स शस्त्राय ततो रोपान्मुनिर्दुदितरं तत्र ॥ ६८ ॥ अति-
 दुर्लक्षितैः कन्या शत्रुहस्तं गमिष्यति । सुतार्थे ते मया सार्धं
 मुनिभिः स पसादितः ॥ ६९ ॥ बालां व्रतवतीं कन्यामनागस-
 से उसके शिरकां काट डाला ॥ ६२ ॥ हे राजप ! पार्थकी रक्षा
 होकर शिरके कटने पर वह श्रेष्ठ असुर जड़ कटे हुए पेड़की
 समान गिर पड़ा ॥ ६३ ॥ हे मानद ! उस समय व्याकाशसे
 गिरते हुए पार्थको कृष्णके सहनेसे प्रशुम्नने थागलिया ॥ ६४ ॥
 निकुम्भके पृथिवीमें गिरने पर श्रीकृष्ण देव धनञ्जयको
 समझा युष्माकर अर्जुन और प्रशुम्नको साथमें ले द्वाकाको
 चले ६५ प्रसन्न होते हुए दशार्हवंशी विश्व यदुनन्दनने द्वारका
 में पहुँच कर महात्मा नारदको प्रणाम किया ६६ उस समय
 महातेजस्वी नारदजीने यादव-भानुसे कहा; कि हे भीमनन्दन
 यादव ! तुम मेरी बातको सुनो, परन्तु (सुनकर) क्रोध न
 करना ६७ उद्यानमें क्रीड़ा करते समय तुम्हारी पुत्रीने दुर्वासा
 अपिने प्रुद कर दिया था, उस समय वन मुनिने रोपमें भर
 कर तुम्हारी पुत्रीको शाप दिया था ६८ अतिदुनारके कारण
 यह कन्या शत्रुके हाथमें पहुँच जायेगी, उस समय अपिगोंने श्री

मिमां मुने । शप्तवानसि धर्मज्ञ कथं धर्मभृगाम्बर । अनुग्रहं विप्र-
 त्स्वात्र वयं विज्ञापयामहे ॥ ७० ॥ अस्माभिरेवमुक्तस्तु दुर्वासा
 भैमनन्दन । उवाचापोमूर्खो भूत्वा मुहूर्तं कृपयान्वितः ॥ ७१ ॥
 यद्वोचमहं वाक्यं तद्यथा न तदन्यथा । रिपुहस्तमवश्यं हि गमि-
 ष्यति न संशयः ॥ ७२ ॥ अदूषितानु धर्मेण भर्तारमुपलप्स्यति ।
 वरुपुत्रा बहुधना सुभगा च भविष्यति ॥ ७३ ॥ सुगन्धगन्धाश्च
 सदा कुमारी च पुनः पुनः । न च शोकमिमं घोरं तन्वद्भी धार-
 मिष्यति ॥ ७४ ॥ एवं भानुमतीं वीर सहदेवाय दीयताम् । श्रद्द-
 धानः स शूरश्च धर्मशीलश्च पाण्डवः ॥ ७५ ॥ ततो भानुमतीं
 भानुर्दशै माद्रीसुताय वै । सहदेवाय धर्मात्मा नारदस्य वचः
 स्मरन् ॥ ७६ ॥ भानीतः सहदेवश्च गेपितश्चक्रपाणिना । विवाहे च

मैंने तुम्हारी कन्याके कारण उन मुनिको प्रसन्न किया था ६६
 हे मुने ! आपने इस ब्रतवती निरपराधा कन्याको कैसे शाप
 दे दिया, हे धर्मभारिणों में श्रेष्ठ धर्मज्ञ ! अब हम आपसे कहते
 हैं, कि—आप इस पर अनुग्रह करिये ॥ ७० ॥ हे भैमनन्दन !
 हमारे इस प्रकार कहने पर दुर्वासा मुनिने कुछ समय तक
 नीचेको मुख कर कृपायुक्त होकर यह वचन कहा; कि—॥ ७१ ॥
 मैंने जा बात कही है, वह अवश्य होगी, यह शत्रुके हाथमें अव-
 श्य ही पड़ेगी ॥ ७२ ॥ परन्तु दूषित नहीं होमी और स्वामीको
 पावेगी, और यह बहुतसे पुत्रों वाली धनवती और सौभाग्य-
 वती होगी ॥ ७३ ॥ यह सुगन्धित गंध वाली और बार २ कुमारी
 होगी और इस तन्वाङ्गी पर कभी घोर क्रुष्ट नहीं पड़ेगा ॥ ७४ ॥
 हे वीर ! अब तुम भानुमती सहदेवको दे दो, वह पाण्डव शूर-
 वीर श्रद्धालु और धर्म शील है ॥ ७५ ॥ तब धर्मात्मा भानुने
 नारदजीके वचनको मान कर माद्रीपुत्र सहदेवको भानुमती देने
 का विचार किया ॥ ७६ ॥ उस समय श्रीकृष्णने सहदेवको बुला

तदा वृत्ते सभार्यः स पुरीं गतः ॥ ७७ ॥ इमं कृष्णस्य विजयं
 यः पठेच्छृणुयादथ । विजयं सर्वकृत्येषु श्रद्धधानो लभेन्नरः ७८
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि भानुमती-
 हरणे निकुम्भवधो नाम नवतितमोऽध्यायः ॥६०॥

जनमेजय उवाच । भानुमत्यापहरणं विजयं वेशवस्य च ।
 क्रीडां च सागरे दिव्यां वृष्णीनामत्तितेजसाम् । अश्रौपं परमा-
 र्थं मुने धर्मभृताम्बर ॥ २ ॥ वज्रनाभवधं ह्यक्तं निकुम्भवध-
 कीर्तने । तन्मे कौतूहलं श्रोतुं गसादाद्भवतो मुने ॥ ३ ॥ नैश-
 म्पायन उवाच । हन्त ते वर्तयिष्यामि वज्रनाभवधं नृपः । विजयं
 चैव कामस्य साम्बस्यैव च भारत ॥ ४ ॥ मेरोः सानौ नरपते
 तपश्चक्रे महासुरः । वज्रनाभ इति ख्यातो निश्चितः समितिंजयः ५

लिया और उसको (भानुके यहाँ) भेज दिया, फिर निवाह
 होने पर वह अपनी भार्याके साथ नगरीको चला गया ॥७७॥
 जो पुरुष श्रीकृष्णके इस विजय वृत्तान्तको सुनता है, वह श्रद्धालु
 पुरुष सब कामोंमें विजय पाता है ॥ ७८ ॥ नवमवाँ अध्याय
 समाप्त ॥ ६० ॥

जनमेजयने कहा; कि—हे धर्मपारियोंमें श्रेष्ठ मुने ! मैंने परम
 अचरजमें डालने वाला भानुमतीका हरण और वेशवकी विजय
 तथा अतितेजस्वी वृष्णिवंशियोंका समुद्रमें दिव्य क्रीडां करनाभी
 सुना ॥ १ ॥ २ ॥ हे मुने ! आपने निकुम्भके वधका कीर्तन करते
 समय वज्रनाभके वधका वर्णन किया था मुझे उसके सुननेका
 कौतूहल होरहा है (आशा है) आपकी कृपासे (मैं उसे सुन
 सहूँगा) ॥ ३ ॥ नैशम्पायनजीने कहा, कि—हे भरतवंशी
 राजन् ! मैं तुमसे वज्रनाभके वधका तथा साम्ब और प्रद्युम्नकी
 विजयका वृत्तन्त कहता हूँ ॥ ४ ॥ हे नरपते ! वज्रनाभ नामवाले
 समितिंजय महाराजसने मेषपर्शकके शिखर पर बड़ा भारी तप

तस्य तुष्टो महातेजा ब्रह्मा लोकपितामहः । परेण च्छन्दयामास
 तपसा परितोपितः ॥ ६ ॥ अवध्यतां सर्वदेवेभ्यो वज्रे दानव-
 सत्तामः । पुरं वज्रपुरं चापि सर्वरत्नमय शुभम् ॥७॥ स्वच्छन्देन
 मवेशश्च न वायोरपि भारत । अचिन्तितेन कामानामुपपत्ति-
 र्नराधिप ॥ ८ ॥ शाखानगरमुत्थानां संवाहानां शतानि च ।
 नगरस्थाप्रमेयस्य सगन्ताज्जनमेजय ॥ ९ ॥ तथा तदभवत्तस्य
 वरदानेन भारत । उवाच वज्रनगरे वज्रनाभो महासुरः ॥१०॥
 कोटिशो वरल धं तमसुराः परिवार्ग ते । ऊर्ध्ववज्रपुरे राजन् संवा-
 हेषु तथैव च ॥ ११ ॥ शाखानगरमुत्थेषु रम्पेषु च नराधिप ।
 हृष्टपुष्टममुदिता नृप देवस्य शत्रवः ॥ १२ ॥ वज्रनाभोय दुष्टात्मा
 वरदानेन दर्पितः । पुरेऽस्य चात्मानश्चैव जगद् बाधितमुद्यतः १३
 क्रिया था ५ उसके ऊपर लोकोंके पितामह महातेजस्वी ब्रह्माजी
 प्रसन्न होगये; तपसे प्रसन्न हुए ब्रह्माजीने-उससे वर माँगनेके
 लिए कहा ६ तब उस दानवसत्तमने सब देवताओंसे अवध्यता
 और संपूर्ण रत्नोंसे भराहुआ वज्रपुर नामक शुभ नगर माँगा ७
 और हे भारत ! (यह भी माँगा, कि-) मेरे नगरमें वायु भी
 स्वच्छन्द होकर न घुस सके, और बिना चिंता किए हुए ही मेरे
 काम सिद्ध हो जाया करें ॥ ८ ॥ और हे जनमेजय ! अपने अम-
 मेय नगरके चारों ओर शाखानगरकी सगान मुठ्य सौ बगीचे
 माँगे ॥ ९ ॥ हे भरतवंशी राजन् ! ब्रह्माजीके वरदानसे तैसा
 ही हुआ, और वज्रनाभ नामक राजस वज्रनामक नगरमें रहने
 लगा ॥ १० ॥ हेराजन् ! वर पाने चाले वज्रनामका आशय ले
 करोड़ों राजस वज्रपुरमें और संवाहोंमें (एक प्रकारके वागोंमें)
 रहने लगे ॥ ११ ॥ हे राजन् ! (श्रीकृष्ण) देवके शत्रु राजस
 रमणीय मुख्य २ शाखानगरोंमें हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न होकर रहने
 लगे ॥ १२ ॥ तदनन्तर वरदानसे दर्पमें भराहुआ दुष्टात्मा वज्र

महेन्द्रमन्त्रीदत्त्वा देवलोकं विशाम्पते । अहपीशितुगिन्द्रामि
त्रैलोक्यं पाकशासन ॥ १४ ॥ अथवा मे प्रयच्छस्व युद्धं देव-
गणेश्वर । सामान्यं हि जगत् कृस्नं कश्यपानां महात्मनाम् १५
स बृहस्पतिना सार्धं मन्त्रयित्वा महेश्वरः । वज्रनाभं सुरश्रेष्ठ।
प्रोवाच कुम्भशज ॥ १६ ॥ सत्रेषु दीक्षितः सौम्यः कश्यपो नः
पिता मुनिः । तस्मिन् वृत्ते यथान्यायं तथा स हि करिष्यति १७
ततः स पितरं गत्वा कश्यपं दानवोऽत्र ीत् । यथोक्तं देवराजेन
तमुवाचाय कश्यपः ॥ १८ ॥ सत्रे वृत्ते करिष्यामि यथान्यायं
भविष्यति । त्वं तु वज्रपुरे पुत्र वस गच्छ समाश्रितः ॥ १९ ॥
एवमुक्ते वज्रनाभः स्वमेव नगरं गतः । महेन्द्रोपि ययौ देवो
द्वारकां द्वारशालिनीम् ॥ २० ॥ गत्वा चान्तर्हितो देवो वासु-

नाभं अपने पुरमें जगत्को पीड़ित करनेके लिए उद्यत होंगया १३
हे राजन् ! उसने स्वर्गमें जाकर इन्द्रसे कहा, कि-हे पाकशासन !
मैं तीनों लोकोंका शासन करना चाहता हूँ ॥ १४ ॥ अथवा
हे देवगणेश्वर ! आप मेरे साथ युद्ध करिये क्योंकि-सारा जगत्
महात्मा कश्यपपुत्रोंके लिए सामान्य (वरावर) ही है ॥ १५ ॥
हे कुम्भशज ! उस समय देवताओंमें श्रेष्ठ महेश्वर इन्द्रने बृहस्पतिजी
से सलाह लेकर वज्रनाभसे कहा, कि-॥ १६ ॥ हमारे पिता
सौम्य कश्यपजी गङ्गमें दीक्षित हैं, गङ्गके निवटने पर वह जैसा
उचित समझेंगे तैसा कर लेंगे ॥ १७ ॥ उस समय उस दानव
ने अपने पिता कश्यपके पास जाकर देवराजने जिस प्रकार कहा
था, उस प्रकार उनसे सन वान कही, तब कश्यपजीने उससे
कहा; कि-॥ १८ ॥ गङ्गके निवटने पर मैं उचित कार्य करूँगा
(तब तब) हे पुत्र ! तू वज्रपुरमें रह, जा तहाँको जा ॥ १९ ॥
इस प्रकार कहने पर वज्रनाभ अपने नगरको चला गया, तब
इन्द्रदेव द्वारवाली द्वारकापुरीको चले । २० ॥ तहाँ पहुँच इन्द्रने

देवगयात्रणीत् । वज्रनाभस्य वृत्तान्तं तमुवाच जनार्दनः ॥२१॥
 शौरिकपि यतो देव वाजिमेरो महाकतुः । तस्मिन् वृत्ते वज्रनाभं
 पातयिष्यामि चासन्न ॥२२॥ तत्रोपायं प्रवेशे तु नितयावः सतां
 गतेः । नानिन्द्रया प्रवेशोस्ति तत्र वागोरपि मभो ॥ २३ ॥ ततो
 गतो देवराजो वासुदेवेन सत्कृतः । वाजिमेये च सम्प्राप्ते वसु
 देवस्य भारत ॥२४॥ तस्मिन् यज्ञे वर्तमाने प्रवेशार्थं सुरोत्तमो ।
 चिन्तयागासतुर्नीरो देवरागाच्युतावृणौ ॥ २५ ॥ तत्र यज्ञे वर्त-
 माने सुनाय्येन नटस्तदा । महर्षिस्तोपयामास भद्रनामेति
 नामतः ॥ २६ ॥ तं वरेण मुनिश्रेष्ठाश्चन्दयामासुरात्पवत् । स
 यत्रे तु नटो भद्रो वरं देवेश्वरापमः ॥२७॥ देवेन्द्रकृष्णचन्देन
 सरस्वत्या प्रचोदितः । पण्डित्य मुनिश्रेष्ठानश्चमथे समागतान् २८

अन्नर्धान रह कर वासुदेवसे वज्रनाभकः वृत्तान्त कहा, तब जना-
 र्दनने उसरो कहा; कि, ॥ २१ ॥ हे देव ! इस समय वसुदेवजी
 का अश्वमेध नामक महायज्ञ होने वाला है, हे इन्द्र ! इस यज्ञके
 होने पर मैं उस दानव वज्रनाभको मारूँगा ॥ २२ ॥ ब्रह्माजी
 की मर्मादा उल्लसन न करना सज्जनोचित मार्ग है, अतः इस
 यज्ञके होने पर हम तहाँ घुसनेका विचार करेंगे, क्योंकि हे मभो !
 तहाँ (असुरकी) इच्छाके बिना भायु भी प्रवेश नहीं कर सकता २३
 उस समय वासुदेवसे सन्कार पाकर देवराज इन्द्र चला गया,
 हे भक्तवशी राजन् । फिर वसुदेवका अश्वमेध यज्ञ आगया २४
 उस यज्ञके चलते समय देवताओंमें श्रेष्ठ वीर देवराज श्रीर अच्युत
 उस नगरमें घुसनेका विचार करने लगे ॥ २५ ॥ जब वह यज्ञ
 होरहा था, उस समय भद्रनामा नाम वाले नटने सुन्दर नाट्य
 करके महर्षियोंको प्रसन्न कर लिया ॥२६॥ उस समय मुनियों
 ने उससे वर माँगनेके लिए कहा उस समय श्रीकृष्ण श्रीर इन्द्र
 की इच्छाके द्वारा प्रेरित सरस्वतीके कारण उस देवराजजी

नट उवाच । भोज्यो द्विजानां सर्वेषा भवेगं मुनिसत्तमाः । सप्त
 द्वीपां च पृथिवी विचरेपमिमागहम् ॥ २६ ॥ गन्धिद्राकाशगमनः
 शकनुवंश्च विशो मतः । अच-यः सर्वभूनां स्थावरा ये च जंगमाः ।
 यस्य यस्य च वेपेण प्रविशेषमहं खलु । मृतस्य जीवतो वापि
 भाष्ये-नोत्पादितस्य वा ॥ ३१ ॥ स तूर्गस्तान्दृशः स्थां वीं जरा-
 रोगविर्जागतः । तुष्पेयुर्मुग्धयो नित्यमन्ये च मम सर्वदा ॥ ३२ ॥
 एरणस्त्विति संगोक्तो ब्राह्मणोर्नृपते नटः । सप्तद्वीपां वसुमतीं
 पर्यटत्यपरोपमः ॥ ३३ ॥ पुराणि दानवेन्द्राणामुत्तरांश्च कुलं-
 स्तथा । भद्रारवान् केतुमालांश्च कालाभ्रद्वीपमेव च ॥ ३४ ॥
 पर्वणीषु तु सर्वास्तु द्वारकां यदुपल्लिताम् । आयाति वरदत्तः
 स लोकवीरो महानटः ॥ ३५ ॥ ततो हंसान् धार्तराष्ट्रान् देव-

समान भद्र नागक नटने अश्वमेधमें आये हुए श्रेष्ठ २ मुनियोंको
 प्रणाम करके अपने स्वरूपके योग्य वर माँगा था ॥ २७ ॥ २८ ॥
 नटने कहा; कि-हे मुनिसत्तमाँ ! मैं सब द्विगोंका भोज्य होजाऊँ
 और मैं सात द्वीप वाली पृथ्वी पर विचरण कर सकूँ ॥ २६ ॥
 मैं आकाशगमनमें विशेष सिद्ध होजाऊँ, समर्थ होजाऊँ और
 जितने स्थावर जंगम हैं उन सबसे अवध्य होजाऊँ ॥ ३० ॥
 मैं मरे हुए वा जीवित प्राणीके वर्तमान वा भावी उत्पन्न किये
 हुए जिस २ वेशमें प्रवेश करना चाहूँ, उस २ वेशमें प्रवेश कर
 मैं शीघ्र ही वैसा होजाऊँ, और मैं दृढता और रोगसे मुक्त रहूँ
 और मुनि तथा दूसरे प्राणी भी मेरे ऊपर सर्वदा सन्तुष्ट
 रहे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ हे राजन् ! ब्राह्मणोंके उस महार पहने पर
 यह देन समान नट सात द्वीप वाली पृथ्वी पर विचरण करने
 लगा ॥ ३३ ॥ यह दानवेन्द्रोंके पुरोंमें उत्तर कुन्धोंमें भद्रारवों
 में केतुमालोंमें और कालाभ्रद्वीपमें (विचरता रहता था) ॥ ३४ ॥
 सम्पूर्ण पर्वणियोंके समय यह लोकवीर वरदान प्राप्त महानट

कोटनिवासिनः । उवाच भगवाच्छकः सात्वित्वा सुरेश्वरः २६
 गन्तो भ्रातरेऽस्माकं काश्यपादेव पत्निणः । विमानवाहा देवानां
 सुकृतीनां तथैव च ॥ ३७ ॥ देवानामस्ति कर्तव्यं कार्यं शत्रु
 वधान्वितम् । तत्कर्तव्यं न गन्त्रश्च भेतव्यो वः यथैवेन ॥ ३८ ॥
 न कुर्वता देवताज्ञामुग्रो दण्डः पतेदपि । सर्वत्रापतिपिद्धं नो गगनं
 हंससत्तमाः ॥ ३९ ॥ गत्यापवेश्यमन्येषां वज्रनाभपुनोत्तमम् ।
 इतीतःपुरवापीषु च चरन्मुनितं द्वि वः ॥ ४० ॥ तस्यातिकन्या
 रत्नं हि त्रिलोखातिशयं शुभम् । नाम्ना प्रभावती नाम चन्द्रा-
 भेव प्रभावती ॥ ४१ ॥ वरदानेन सा लब्धा मात्रा किल वरा-
 नेना । हेमवत्या मेहादेव्याः सकाशादिति नः श्रुतम् ॥ ४२ ॥

यादृशीं निभूषित द्वारकामें आया करता था ॥ ३५ ॥
 इसी समय देवराज सुरेश्वर भगवान् इन्द्रने, देवलोकमें रहनेवाले
 धार्तराष्ट्र हंसोंको समझा कर कहा, कि— ॥ ३६ ॥ आप हमारे
 भाई हैं क्योंकि—पत्नी भी काश्यप (गरुड़) से ही हुए हैं और
 आप पुण्यात्मा व्यक्तियोंके और देवताओंके विमानोंको लेजाया
 करते हैं ॥ ३७ ॥ शत्रुओंका यध करनेके लिए देवता एक कार्य
 का करना चाहते हैं, उस कामको आपको करना चाहिये और
 देवताओंका मन्त्र किसी प्रकार नहीं खोलना चाहिये ॥ ३८ ॥
 और देवताओंकी आज्ञाका पालन न करनेसे भयंकर दण्ड भी
 भुगतना पड़ सकता है, हे श्रेष्ठ हंसों ! तुम्हारा गगन यहीं पर
 भी निपिद्ध नहीं है ॥ ३९ ॥ अब तुम जिसमें दूसरे नहीं घुस
 सकते ऐसे वज्रनाभपुरमें जाओ और तहाँके अन्तपुरकी वावड़ियों
 पर तुम विचरण करो (गहँ गुंके) उचित लगता है ॥ ४० ॥
 उसकी कन्या त्रिलोशीके रत्नोंसे भी बढकर है, उसका नाम
 प्रभावती है, और वह चन्द्रमाकी आभा—चाँदनी—की समान प्रभा
 वाली है ४१ हमने सुना है, कि उसकी माताने उस वराननाके लिए

स्वयम्बरा च सा कन्या बन्धुभिः स्थापिता सती । आत्मेच्छया
 पतिं हंसा वरयिष्यति शोभना ॥ ४३ ॥ तद्भवद्भिर्गुणा वाच्याः
 प्रद्युम्नस्य महात्मनः । सद्वभूता कुलरूपस्य शीलस्य वयसास्तथा ४४
 यदा सा रक्तभावा च वज्रनाभसुता सती । यस्याः सकाशात्
 सन्देशो नयितव्यः सगाधिना ४५ प्रद्युम्नस्य पुनस्तस्मादान-
 यध्वं तथैव च । स्वबुद्ध्या प्राप्तकालं च संविधेयं हितं मम ४६
 नेत्रवक्रपसादश्च कतेव्यस्तत्र सर्वथा- ॥ ४७ ॥ तथा तथा गुणा
 वाच्याः प्रद्युम्नस्य महात्मनः । यथा यथा प्रभावत्या मनस्तत्र
 भवेत् स्थितम् ॥ ४८ ॥ वृत्तान्तश्चानुदिवसं गदेयो मम सर्वथा ।
 द्वारवत्यां च कृष्णस्य भ्रातुर्गम यवीयसः ॥ ४९ ॥ तावद्यत्नश्च
 कर्तव्यः प्रद्युम्नो यावदात्मवित् । पर्यावर्तेद्वरारोहा वज्रनाभसुतां
 विभुः ॥ ५० ॥ अवध्यास्ते तु देवानां ब्रह्मणी वरदर्पिताः ।

हिगाचलकी पुत्री महादेवीके वरसे पाया है ४२ और (हमने सुना
 है, कि-) वह शोभना कन्या अपने दाँधवाँके द्वारा स्वयंवरके
 लिए खड़े काने पर अपनी इच्छासे पतिका वरण करने वाली
 है ४३ इस लिए तुम उससे महात्मा प्रद्युम्नके शील और अवस्था
 के सद्वगुणोंका वर्णन करो ४४ जब वज्रनाभकी सती पुत्रीका
 भाव प्रद्युम्न पर अनुरक्त-पतीत हो तब तुम सावधानीसे उसका
 संदेश (प्रद्युम्नके पास) ले जाना ४५ फिर प्रद्युम्नका संदेश उस
 के पास लेमाना (इसके अतिरिक्त) समयानुसार अपनी बुद्धिसे
 मेरा हिनही करना ४६ और तहाँ पर मुख और नेत्रोंके सर्वथा
 प्रसन्न रखना ॥ ४७ ॥ तुम महात्मा प्रद्युम्नके गुणोंका इस
 प्रकार कीर्त्तन करना कि प्रभावतीका मन प्रद्युम्नमें लग जाय ४८
 इसका घृत्तान्त तुम मुझे प्रतिदिन देते रहना और द्वारकामें मेरे
 छोटे भाईको सगाचार देते रहना ॥ ४९ ॥ जब तक आत्मवान्
 विभु प्रद्युम्न उस वज्रनाभकी पुत्री वरारोहा कन्याको प्रहण करने

देवपुत्रेहि हन्तव्या मधुमनममुखैर्युधि ॥५१॥ नटो दत्तररम्यस्य
 बेवमास्थाय यादवाः । मधुमनाद्या गमिष्यन्ति वज्रनाभविना
 शनाः ॥ ५२ ॥ एतच्च सर्वं कर्तव्यमन्यच्च सर्वमेव हि । प्राप्तकालं
 विघातव्यमस्माकं प्रियकाम्यया ॥ ५३ ॥ प्रवेशस्तत्र देवानां
 नास्ति हंसा कथञ्चना वज्रनाभेऽसिसते तत्र प्रवेशः खलु सर्वथा ५४

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि

एकनवतिसप्तोऽध्यायः ॥ ६१ ॥

शैशम्पायन उवाच । ते वासनवनः श्रुत्वा हंसा वज्रपुरं ययुः ।
 पूर्वोन्नितं हि गगनं तेषां तत्र जनाधिप ॥ १ ॥ ते दीर्घिकासु
 रभ्यासु निपेतुर्वीर पत्निणः । पद्मोत्पलैरावृतासु काञ्चनैः स्पर्शं न
 क्षमैः ॥ २ ॥ ते नौ नन्दतो मधुरं संस्कृत्वापूर्वभाषिणः । पूर्व-

के लिये तयार हो, तब तक तुम यत्न करते रहो ५० ब्रह्माजी
 के वरदानसे उद्भूत ये राजस देवताओंसे अवध्य हैं, इसलिये
 मधुमन आदि मुत्प २ देवताओंके पुत्रोंसे ये युद्धमें मारे जासकते
 हैं ॥५१॥ नट तो बर मिला हुआ है, वज्रनाभको नष्ट करनेवाले
 मधुमन आदि यादव उस नटके (साथ) नटकासा बेप धारण
 कर चले जावेंगे ॥५२॥ तुम हयारा प्रिय करनेकी इच्छासे इस
 कार्यको तथा दूसरे भी समगोवित कार्यको करना ॥ ५३ ॥
 तहाँ पर देवता किसी प्रकार नहीं घुस सकते हे हंसों । तहाँ पर
 तो वज्रनाभके चाहन पर ही प्रवेश होसकता है ५४ इत्यानवेवों
 अध्याय समाप्त ॥ ६१ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥

शैशम्पायनजीने कहा, कि-इन्द्रके वचनको सुन कर हंस वज्र-
 पुरको चल दिये क्योंकि हे राजन् । वह तो तहाँ पहिले ही जाना
 चाह रहे थे ॥१॥ हे वीर । वे पत्नी छूने योग्य सुवर्णके कमलोंसे
 आच्छादित रमणीय वावड़ियों पर उतर गए ॥ २ ॥ वे शुद्ध
 और अपूर्व भाषण करते हुए गाद करने लगे, वे तहाँ पहिले

मप्यागतास्ते तु विस्मयं जनयन्ति ह ॥३॥ अन्तःपुरोपभोग्यासु
चेर्वापीषु ते नृप । इष्टास्ते वज्रनाभस्य त्रिविष्टपनिवासिनः ।
आलपन्तः सुगधुरं धार्तराष्ट्रा जनेश्वर । स ताडुवाच दैतेयो
धार्तराष्ट्रानन्दं वचः॥५॥ त्रिविष्टपे नित्यरता भवन्तश्चारुभीषणः ।
यदैवेहोत्सवोस्माकं भवद्विरवगम्यन्ते ॥ ६ ॥ आगन्तव्यं जाल
पादाः स्वगिदं भवतां गृहम् । विस्मयं च प्रवेष्टव्यं त्रिविष्टप-
निवासिनिः ॥ ७ ॥ ते तथोक्ताः शकुनयो वज्रनाभेन भारत ।
तथेत्युक्त्वा हि त्रिविशुर्दानवेन्द्रनिवेशनम् ॥ ८ ॥ चक्रुः परिचयं
ते च देवकार्यव्यपेक्षया । मानुषालापिनस्ते तु कथारचक्रुः
पृथग्विधाः ॥ ९ ॥ वंशवद्धाः काश्यपानां सर्वकल्याणभागी-
नाम् । स्त्रियो रंमुनिशेण शृण्वन्त्यः संगताः कथाः ॥ १० ॥

पहिल आये थे, इसलिये (प्राणियोंको) विस्मित कर रहे थे।
हे राजन् ! वे अन्तःपुरकी भोगनेयोग्य वाचद्विर्गमें विचरने लगे,
वे स्वर्गमें रहने वाले हंस वज्रनाभकी भी अन्धे लगते थे ॥४॥
हे जनेश्वर ! वे धार्तराष्ट्र हंस गधुर वाणीका उच्चारण कर रहे थे
उस समय, दितिपुत्र (वज्रनाभने) धार्तराष्ट्रोंसे यह बात कही,
कि - ॥ ५ ॥ आप सुन्दर भाषण करने वाले पत्नी, सर्वदा स्वर्ग
से ही प्रेम करते रहते हैं, यदि तुम हमारे गहाँ पर रहना उत्सव
(प्रसन्नता देनेवाला) समझो तो ॥६॥ हे हंसों ! तुम गहाँपर
आजाओ यह घर आपका ही है, आप स्वर्गके निवासी गहाँ पर
विरवस्त होकर आजाय ॥७॥ हे भरतवंशी राजन् ! जब उन
पत्नियोंसे वज्रनाभने इस प्रकार कहा तब वे पत्नी तथास्तु कह
कर दानवेन्द्रके घरमें घुस गए ॥८॥ देवताओंके कार्यकी अपेक्षा
के कारण तहाँ उन्होंने जान पहिचान कर ली, वे गन्धुण्डी समान
बोलकर बस पर बैठ भिन्न २ प्रकारकी कथाएँ कहने लगे, सब
प्रकारके पंचायणोंके भागी काश्यपों (दानवों)की इषट्ठी हुई

विचरंस्ते ततो हंसा ददृशुश्चारुहासिनीम् । प्रभावतीं वरारोहां
 वज्रनाभसुतां तदा ॥ ११ ॥ हंसाः परिचितां चक्रुस्तां ततश्चारु-
 हासिनीम् । सखीं शुचिमुखीं चक्रे हंसी राजसुता तदा ॥ १२ ॥
 सा तां कदाचित् प्रपच्छ वज्रनाभसुतां तदा । विसम्भितां पृथ-
 क्स्मृत्तैराख्यानशतैर्वराम् ॥ १३ ॥ त्रैलोक्य सुन्दरीं वेद्मि त्वामहं
 हि प्रभावति । रूपशीलगुणैर्देवि किञ्चित्त्वां वक्तुमुत्सहे ॥ १४ ॥
 व्यतिक्रामति ते भीरु यौवनं चारुहासिनि । यदतीतं पुनर्नैति गतं
 स्रोतं इवाभसः ॥ १५ ॥ कामोपभोगतुन्या हि रतिर्देवि न विद्यते ।
 स्त्रीणां जगति कल्याणि सत्यमेतद्भवीमि ते ॥ १६ ॥ स्वयंवरं च
 न्यस्ता त्वं पित्रा सर्वांगशोभने । न च काञ्चिद्द्वयसे देवासुर-

स्त्रिणो तो उनकी बातोंको सुन कर विशेष आनन्द मानती थीं १०
 हंसोंने तहाँ पर विचरण करते २ सुन्दर हास्य वाली वज्रनाभ
 की पुत्री प्रभावतीको देखा ॥ ११ ॥ हंसोंने उस चारुहासिनी
 को अपनी परिचिता बना लिया, राजपुत्रीने भी शुचिमुखी नाम
 वाली हंसीको अपनी सखी बना लिया ॥ १२ ॥ उस हंसीने
 जब उसको 'संकड़ो कहनेमें सुन्दर आख्यान सुनाकर विश्वस्त
 बना लिया तब एक दिन उसने वज्रनाभकी श्रेष्ठ पुत्रीसे कहा,
 कि— ॥ १३ ॥ हे प्रभावती ! मैं तुमको त्रिलोकसुन्दरी, समझती
 हूँ, हे देवि ! मैं तुम्हारे रूप शील और गुणोंके कारण तुमसे कुछ
 कहना चाहती हूँ ॥ १४ ॥ हे चारुहासिनि ! तुम्हारा यौवन वीतता
 हुआ चला जा रहा है, यदि यह यौवन चला, जावेगा तो जलके
 प्रवाहकी समान पीछेको लौट कर नहीं आवेगा ॥ १५ ॥
 हे कन्याणि ! मैं यह बात सत्य कहती हूँ, कि—हे देवि ! इस
 जगत्में स्त्रियोंके लिए कामभोगकी समान और कोई सुख देने
 वाली वस्तु नहीं है ॥ १६ ॥ हे सर्वांगशोभने ! तुम्हारे पिता
 तुमको स्वयंवरमें खड़ा करेंगे तुम (तुम अपनी समान न होनेसे)

कुलोद्भवान् १७ व्रीहिता यान्ति सुश्रोणि प्रत्याख्यातास्त्वया शुभे ।
 रूपशौर्यगुणैर्घृक्तान् सदृशास्त्वं कुलस्य हि ॥ १८ ॥ आगता-
 न्नेच्छसे देवि सदृशान् कुलरूपयोः । इर्ह्यति किमर्थं त्वां मधु-
 म्नो रुक्मिणीसुतः ॥ १९ ॥ त्रैलोक्येयस्य रूपेण सदृशो न कुलं न
 वा । गुणैर्वा चारुसर्वाङ्गि शौर्येणाप्यस्ति वा शुभे ॥ २० ॥ देवेषु
 देवः सुश्रोणि दानवेषु च दानवः । मानुषेष्वपि धर्मात्मा मनुष्यः
 स महाबलः ॥ २१ ॥ यं सदा देवि दृष्ट्वा हि सर्वान्त जघनानि
 हि । आपीनानीव धेनूनां स्रोतांसि सारतामिव ॥ २२ ॥ न
 पूषाचन्द्रेण मुखं नयने वा कुशेशर्यैः । उत्सहे नोपमातुं हि मृगे-
 न्द्रं णोधवा गतिम् ॥ २३ ॥ जगतः सारमुद्बृष्टस्य पुत्रः स विहितः
 शुभे । कृत्वानगं वरे सांगं विष्णुना प्रभावष्णुता ॥ २४ ॥ हृतेन

देवता और असुरोंके कुलमें उत्पन्न हुए किसी व्यक्तिको न वर
 सक्षीमी १७ हे सुश्रोणि । हे शुभे । तुम्हारे निषेध करने पर वह
 लज्जित होकर चले जावेंगे, स्वभाव और शूरताके गुणोंसे युक्त
 कुल और स्वभावमें समान व्यक्तियोंको हे देवि । तू नहीं चाहेगी
 (क्योंकि वे तेरी समान रूपवान् न होंगे और रुक्मिणीका पुत्र
 मधुमन तो तेरे लिये यहाँ आवेगा ही क्यों ? ॥ १८ ॥ १९ ॥ हे नाग
 सर्वाङ्गि । हे शुभे ! रूप कुल शूरता और गुणोंमें त्रिलोकीका कोई
 भी पुरुष उनकी बराबर नहीं है २० हे सुश्रोणि । वह देवताओंमें
 देवता दीव्यते हैं और दानवोंमें दानव दीव्यते हैं और मनुष्योंमें भी
 महाबली धर्मात्मा मनुष्य है २१ जैसे धेनूओंके स्तन और नदियोंके
 स्रोत टपकते रहते हैं इसी प्रकार उनकी देव्यते ही स्त्रियोंके जघन
 गीले होजाया करते हैं २२ में उनके मुखकी पूर्ण चन्द्रमामें, नेत्रोंकी
 गमलोंसे, और गतिकी सिद्धकी गतिसे भी उपाय नहीं देसकती २३
 हे वरे ! हे शुभे ! प्रधानवान् विष्णुने शरीररहित कामदेवको
 जगती सारी सामग्रियोंसे गढ़ खाने यहाँ पुत्र बना उत्पन्न

शम्भरो वाच्ये येन पापो निवर्द्धिनः । पायाश्च सर्वाः सम्प्राप्ता न
 च शीलं निगाशितम् ॥२५॥ यान् यान् गुणान् पृथुओणि मनसा
 कल्पयिष्यसि । एष्ट्यास्त्रिषु लोकेषु प्रद्युम्ने सर्व एष ते ॥२६॥
 रुच्या बन्धिपतीकाशः क्षमया पृथिवीसमः । तेजसा सूर्यसदृशो
 गाम्भीर्मेण हृदोपमः । प्रभाषती शुचिमुग्धी त्विति होवान
 भागिनी ॥ २७ ॥ प्रभावत्युवाच । विष्णुर्मानुषलोकस्थः श्रुतः
 सुबहुशो गया । पितुः कथयतः सौम्ये नारदस्य च धीमतः २८
 शत्रुः किल स दैत्यानां वर्जनीयः सदानघे । कुलानि किल दैत्यानां
 तेन दग्धानि मानिनि ॥ २९ ॥ प्रदीप्तेन रथाग्नेन शार्ङ्गेण गदया
 तथा । शाखानगरदेशेषु वसन्ति किल ये सुराः ॥ ३० ॥ इत्येते

किया है २४वालाकपनमें इनको शम्भरोसुर हर कर ले गया था, तब इन्होंने उस पापाको मार डाला था और उसमें सारी पापाएँ सीख ली थीं, परन्तु (अपने) शीलको नष्ट न होने दिया था २५ हे सुओणि ! तुम्हारे मनमें जिन २ गुणोंका विचार होगा, वे सब गुण त्रिलोकीमें हूँदने पर प्रद्युम्नमें ही मिलेंगे २६ वह, रुचि (कान्ति)में अग्निकी समान हैं, क्षमामें पृथिवीकी समान है, तेज में सूर्यकी समान हैं और गम्भीरतामें कुण्डकी समान हैं, तब भागिनी प्रभावतीने शुचिमुग्धीसे इस प्रकार कहा था २७ प्रभावतीने कहा, कि हे सौम्ये ! मैंने बुद्धिमान् नारदजीको और अपने पिताकी यागचीतमें अनेक धार सुना है, कि—(आजकल) विष्णु मानुषलोकमें रहते हैं २८ परन्तु हे निपापे ! वह तो दैत्यों के शत्रु है, अतः उन्हें तो त्यागना ही चाहिये, हे मानिनी ! उन्होंने तो प्रदीप्त चक्र, शार्ङ्ग धनुष और गदामे दैत्योंके कुलके कुल भस्म दिये हैं फिर भी शाखानगरोंमें जो असुर रहते हैं दानवेन्द्र उनसे जिन (बलवान्) की नाते करना रहता है उस बलवान् के प्रति सब सम्पूर्ण स्त्रियोंका मनोरथ होता ही है । अतः वे

दानवेन्द्रेण सन्दिश्यन्ते हि तं प्रति । मनोरथो हि सर्वासां स्त्रीणा-
मेव शुचिस्मिते ॥ ३१ ॥ भवेद्धि मे पतिकुलं श्रेष्ठं पितृकुलादिति ।
यदि नामाभ्युपायः स्यात्तस्येहागमनं प्रति ॥ ३२ ॥ महाननुग्रहो
ये स्यात् कुलं स्यात् पावितं च मे । समर्थनां मे पृष्ठा त्वां मयच्छ
शुचिल्लापिनि ॥ ३३ ॥ प्रद्युम्नः स्याद्यथा भर्ता स मे वृष्णिकुलो-
द्भवः । अत्यन्तवीरी दैत्यानामुद्रेजनकरो हरिः ॥ ३४ ॥ असु-
राणां स्त्रियो वृद्धाः कथयन्त्यो मया श्रुताः । प्रद्युम्नस्य तथा
जन्म पुरस्तादपि मे श्रुतम् ॥ ३५ ॥ यथा च तेन निहतो बलवान्
कालशम्बरः । हृदि मे वर्तते नित्यं प्रद्युम्नः खलु सत्तमे ॥ ३६ ॥
हेतुः स नास्ति स्यात्तेन यथा मम समागमः । दासी तवाहं
सख्याहं दूत्ये त्वां च विसर्जये ॥ ३७ ॥ पण्डितासि वदोपायं मम

काममूढ होनेसे शत्रुओंके भी बलवान् पुरुषों पर अनुराग
करने लगती हैं शुचिस्मिते ! स्त्रियें सबदा यही चाहा करती
हैं, कि-मेरे पतिका कुल मेरे पिताके कुलमे श्रेष्ठ ही हो,
यदि उनको यहाँकुलानेका कोई उपाय तू कर सकती हो २६-३२
तो तू मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह करेगी और मेरा कुल भी पवित्र
हो जावेगा, हे पवित्रतासे भाषण करने वाली ! मैं तुमसे वृक्त
रही हूँ तुम कार्यके सिद्ध करनेका ऐसा उपाय बताओ ॥ ३३ ॥
जिससे विष्णुकुलमें उत्पन्न हुए प्रद्युम्न मेरे स्वामी होजावें, मैंने
वृद्ध २ दैत्यस्त्रियोंसे सुना है, कि हरि नैत्योंके बड़े भारी वीरी
और उद्विग्न करने वाले हैं और मैंने पहिले प्रद्युम्नका जन्म
वृत्तान्त भी सुना है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ और उन्होंने बलवान् कालशम्बर
को जिस प्रकार मारा था (यह वान भी मैंने सुनी है) हे सत्तमे !
मेरे मनमें तो प्रद्युम्न ही सदा बसे रहते हैं ॥ ३६ ॥ क्या कोई
ऐसा उपाय नहीं होसकता, जिससे उनका और मेरा समागम
होसके, हे सखी ! मैं तुमको दूनी बना कर देजती हूँ और मैं

तस्य च सङ्गमे । ततस्तां सान्त्वयित्वा सा महसन्तीदगव्रवीत् ३८
 शुचिमुख्युवाच । तत्र दूती गमिष्यामि तत्र हं चारुहासिनि । इमां
 भक्तिं तवोदारं पवक्ष्यामि शुचिस्मिते ॥ ३६ ॥ तथा चैव करि-
 ष्यामि यथेर्ष्यति तवान्तिकम् । सान्नात् कामेन सुश्रोणि भवि-
 ष्यति सकामिनि ॥ ४० ॥ इति मे भाषितं नित्यं स्मरेथाः शुचि-
 लोचने । कथाकुशलतां पित्रे कथयस्वापतंज्ञणे ॥ ४१ ॥ पमत्वं
 तत्र मे देवि हितं सम्यक् प्रपत्स्यसे । इत्युक्त्वा सा तथा चक्रो
 यत्तत्सा तापथाव्रवीत् ॥ ४२ ॥ दानवेन्द्ररच ना हंसी पप्रच्छान्तः-
 पुरे तदा । प्रभातया समाख्याता कथाकुशलता तव ॥ ४३ ॥
 तत्त्वं शुचिमुखि ब्रूहि कथां योग्यतया वरे । किं त्वया दृष्टमाश्चर्यं

तुम्हारी सर्वदा दासी बनी रहूँगी ॥ ३७ ॥ तुम चतुर हो, अतः
 मेरे और उनके संगम होनेके उपागको बताओ, तब हंसी हँस
 कर प्रभावतीसे कहने लगी ॥ ३८ ॥ शुचिमुखीने कहा कि—
 हे चारुहासिनि । मैं तहाँ पर तुम्हारी दूती बन कर जाऊँगी
 और हे शुचिस्मिते ! तुम्हारी इस बड़ी भारी भक्तिका तहाँ वर्णन
 करूँगी ॥ ३६ ॥ और मैं ऐसा ही उपाग करूँगी, जिससे वह
 तेरे पास आ ही जाँय, हे सुश्रोणि ! हे कामिनि ! तू कामावतार
 (प्रद्युम्न) के साथ सान्नात्कार कर सकेगी ॥ ४० ॥ हे पवित्र
 लोचन ! तुम मेरे इस भाषणका सर्वदा स्मरण रखना और हे
 विशालनेत्रे ! तुम अपने पितासे यह भी कहना कि—(शुचि-
 मुखी) कथा कहनेमें चतुर है ४१ हे देवि ! तहाँ पर भी आप
 मेरे हित की बातका ध्यान रखना, इस प्रकार कहने पर प्रभा-
 वतीने उसकी इच्छानुसार किया ४२ तब दानवेन्द्रने अन्तःपुरमें
 हंसीसे कहा; कि मुझसे प्रभावतीने कहा है, कि-तुम कथा कहने
 में कुशल हो ॥ ४३ ॥ हे श्रेष्ठ शुचिमुखी ! अब तुम मुझसे
 तत्त्वकथाका वर्णन करो, हे उत्तम पत्निणी ! तुमने जगत्में

जगत्पुत्रमपत्तिणि ॥ ४४ ॥ अदृष्टपूर्वमन्यैर्वा योग्या योग्यमनि-
न्दिते । सोवान वज्रनाभन्तु हंसी वर नरोत्तम ॥ ४५ ॥ श्रूयता-
मित्यथामन्त्र्य दानवेन्द्र महाश्रुतिम् । दृष्टा मे शाण्डिली नाम
साध्वी दानवसत्तम । आश्रयं कर्म कुर्वन्ती मेरुपार्ष्वे गनस्विनी ४६
सुमनाश्चैव कौशल्यया सर्वभूतहिते रता । कथञ्चिद्द्वरशाण्डिल्याः
शैलपुत्र्याः शुभा सन्वी ॥ ४७ ॥ नटश्चैव मया दृष्टो मुनिदत्तवरः
शुभः । कामरूपी च भोज्यश्च त्रैलोक्ये नित्यसम्पतः ॥ ४८ ॥
कुर्वन् यात्यत्तरां वीर कालाञ्जरीपमेव च । भद्राश्वान् केतुमालाश्च
द्वीपानग्नास्नयानघ ॥ ४९ ॥ देवगन्धर्वगोपानि नृत्यानि त्रिवि-
धानि च । स वेत्ति देवान् नृत्येन विस्मापयति सर्वथा ॥ ५० ॥

कौनसा उत्तम आश्रय देवा है ॥ ४४ ॥ हे अनिन्दिते ! तूने
जगत्पुत्र योग्य अयोग्य दूसरोंका पहिल न देखा हुआ; कौनसा
आश्रय देखा है ? हे नरवरोत्तम ! उस समय हंसीने वज्रनाभसे
कहने लगी ४५ उसने महाकान्तिवान् दानवेन्द्रसे सुनिये, इस
प्रकार कह कर उससे कहा, कि-हे दानवसत्तम ! मैंने मेरुपर्वतके
पार्ष्वमें आश्रयजनक कर्म करती हुई शाण्डिली नामवाली साध्वी
देखी है ४६ और सब भूतोंके हितमें परायण रहने वाली कौशल्य-
वंशी सुमनाको भी देखा है वह शाण्डिलीसे कुछ श्रेष्ठ है और
शैलपुत्री पार्वतीकी शुभा सखी है ४७ और मैंने एक नट देखा
है, उस शुभको नट नर मिला हुआ है, वह इच्छानुसार रूप
धारण कर लेता है वह भोज्य है और त्रिलोकीमें नित्य सत्कार
पाता रहता है ॥ ४८ ॥ हे निष्ठाप वीर ! वह उत्तर कुहदेशोंमें
कालाञ्जरीपमें भद्राश्वोंमें, केतुमालीमें तथा दूसरे द्वीगोंमें भी विचरण
करता रहता है ४९ वह देवनाओंके और गन्धर्वोंके गीतोंको
और नाना प्रकारके नाचोंको जानता है और वह अपने नृत्यसे
देवनाओंको भी विस्मय कर देता है ५० वज्रनाभने कहा, कि-

वज्रनाभ उवाच । श्रुतमेगन्मया हंसि न चिरादिव विस्तरम् । चार-
 खानां कथयतां सिद्धानां च महात्मनाम् ॥ ५१ ॥ कुतूहलं ममा-
 प्यस्ति सर्वथा पत्तिनन्दिनि । नटे दत्तवरे तग्मिन् संस्तवस्तु न
 विद्यते ॥ ५२ ॥ हंस्युवाच । समद्वीपान् विचरति नटः स दिति
 जोत्तम । गुणवन्तं जनं श्रुत्वा गुणकार्यः स सर्वथा ॥ ५३ ॥ तत्र
 चेन्द्रगुणाद्वीर सद्भूत गुणविस्तरम् । नटं तदागतं विद्धि पुरं
 तत्र महासुर ॥ ५४ ॥ वज्रनाभ उवाच । उपायः सृजतां हंसि
 येन हंसि नटः शुभे । आगच्छेन्मम भद्रं ते विषयं पत्ति-
 नन्दिनि ॥ ५५ ॥ तेहंसा वज्रनाभेन कार्यहेतोर्विसर्जिताः । देवेन्द्रा-
 याथ कृष्णाय शंससुः सर्वमेव तत् । ५६ । अधोत्तजेन प्रद्युम्नो
 नियुक्तस्तत्र कर्मणि । प्रभावत्याश्च संसर्गे वज्रनाभवधे तथा ५७
 देवीं मायां समाश्रित्य सम्बिधाय हरिर्नटम् । नटवेषेण भैमानां

हे हंसि ! थोड़ा समय हुआ मैंने भी चारण महात्मा और सिद्धों
 को यह बात कहते हुए सुना था ५१ हे पत्तिनन्दिनि ! मुझे भी
 इस बातका बड़ा कुतूहल है, परन्तु उस वरदानप्राप्त नटने मेरे
 गुण नहीं सुने हैं (इमी लिए वह मेरे पास नहीं आया है) ५२
 हंसीने कहा, कि-हे दितिजोत्तम ! वह नट सातों द्वीपोंमें घूगता
 फिरता है वह गुणी मनुष्यको (सुनते ही पहुँच जाता है) वह
 सर्वथा गुणकार्य है ५३ हे वीर ! यदि वह आपके गुणोंको सुन
 लेय तो हे महासुर ! आप उसको यहाँ आया हुआ ही सम-
 भिये ॥ ५४ ॥ वज्रनाभने कहा, कि-हे शुभे पत्तिनन्दिनि !
 तू ऐसा उपाय कर जिससे वह नट मेरे नगरमें-आजाय, तब तेरा
 कन्याएँ होगा ५५ उन हंसोंको वज्रनाभने (इस) कामके लिए
 छोड़ दिया, तब उन्होंने देवेन्द्रसे और कृष्णसे यह सब बातें
 वहीं ५६ तब अधोत्तज श्रीकृष्णने उस कर्ममें वज्रनाभका वध करने
 के लिए और प्रभावतीका संसर्ग करनेके प्रद्युम्नको नियुक्त कर

जगत्सुत्तमपत्त्रिणि ॥ ४४ ॥ अदृष्टपूर्वमन्यैर्वा योग्या योग्यमनि-
न्दिते । सोनान वज्रनाभन्तु हंसी वर नरोत्तम ॥ ४५ ॥ श्रुगता-
मित्यथामन्त्र दानवेन्द्र महाश्रुतिम् । दृष्टा मे शाण्डिली नाम
साध्वी दानवसत्तम । आश्रयं कर्म कुर्वन्ती मेरुपार्श्वे गनस्विनी ४६
सुमनाश्चैव कौशल्यया सर्गभूतहिते रता । कथञ्चिद्द्वरशाण्डिल्याः
शैलपुत्र्याः शुभा सखी ॥ ४७ ॥ नटश्चैव मया दृष्टो मुनिदत्तवरः
शुभः । कामरूपी च भोज्यश्च त्रैलोक्ये नित्यसम्गतः ॥ ४८ ॥
कुर्वन् यात्यत्तरां वीर कालाभ्रद्वीपमेव च । भद्राश्वान् केतुपालांश्च
द्वीपानन्गास्नथानघ ॥ ४९ ॥ देवगन्धर्वगेषानि नृत्यानि विवि-
धानि च । स वेत्ति देवान् नृत्येन विस्मापयति सर्वथा ॥ ५० ॥

कौनसा उत्तम आश्रय देवा है ॥ ४४ ॥ हे अग्निन्दिते ! तूने
जगत्सु योग्य अयोग्य दूसरोंका पहिल न देखा हुआ; कौनसा
आश्रय देखा है ? हे नरवरोत्तम ! उस समय हंसीने वज्रनाभसे
कहने लगी ४५ उसने महाकान्तिवान् दानवेन्द्रसे सुनिये, इस
प्रकार कह कर उससे कहा, कि-हे दानवसत्तम ! मैंने मेरुपर्वतके
पार्श्वमें आश्रयजनक कर्म करती हुई शाण्डिली नामवाली साध्वी
देखी है ४६ और सब भूतोंके हितमें परायण रहने वाली कौशल्य-
वंशी सुमनाको भी देखा है वह शाण्डिलीसे कुछ श्रेष्ठ है और
शैलपुत्री पार्वतीकी शुभ सखी है ४७ और मैंने एक नट देखा
है, उस शुभको नट वर मिला हुआ है, वह इच्छानुसार रूप
धारण कर लेता है वह भोज्य है और त्रिलोकीमें नित्य सत्कार
पाता रहता है ॥ ४८ ॥ हे निष्पाप वीर ! वह उत्तर कुहदेशोंमें
कालाभ्रद्वीपमें भद्राश्वोंमें, केतुपालोंमें तथा दूसरे द्वीपोंमें भी विचरण
करता रहता है ४९ वह देवनाओंके और गन्धर्वोंके गीतोंको
और नाना प्रकारके नाचोंको जानता है और वह अपने नृत्यसे
देवनाओंको भी चिस्मिन्न कर देता है ५० वज्रनाभने कहा, कि-

वज्रनाभ उवाच । श्रुतमेतन्मया हंसि न निगादित्र विस्तरम् । चार-
 णानां कथयतां सिद्धानां च महात्मनाम् ॥ ५१ ॥ कुतूहलं ममा-
 प्यस्ति सर्वथा पत्तिनन्दिनि । नटे दत्तवरे तस्मिन् संस्तवस्तु न
 विद्यते ॥ ५२ ॥ हंस्युवाच । समद्वीपान् विचरति नटः स दिति
 जोत्तम । गुणवन्तं जनं श्रुत्वा गुणकार्यः स सर्वथा ॥५३॥ तत्र
 चेन्द्रगुणाद्वीरं सद्भूतं गुणविस्तरम् । नटं तदागतं विद्धि पुरं
 तत्र महासुर ॥ ५४ ॥ वज्रनाभ उवाच । उपायः सृजतां हंसि
 येन हंसि नटः शुभे । आगच्छेन्मम भद्रं ते विषयं पत्ति-
 नन्दिनि ॥५५॥ तेहंसा वज्रनाभेन कार्णहेतोर्विसर्जिताः । देवेन्द्रा-
 याय कृष्णाय शंशसुः सर्वमेव तत् । ५६ । अधोक्षजं प्रद्युम्नो
 नियुक्तस्तत्र कर्मणि । प्रभावत्याश्च संसर्गं वज्रनाभवधे तथा ५७
 देवीं मायां समाश्रित्य सम्बिधाय हरिर्नटम् । नटवेणेण भैमानां

हे हंसि ! थोड़ा समय हुआ मैंने भी चारण महात्मा और सिद्धों
 को यह बात कहते हुए सुना था ५१ हे पत्तिनन्दिनि ! मुझे भी
 इस बातका बड़ा कुतूहल है, परन्तु उस वरदानप्राप्त नटने मेरे
 गुण नहीं सुने हैं (इमी लिए वह मेरे पास नहीं आया है) ५२
 हंसीने कहा, कि-हे दितिजोत्तम ! वह नट सातों द्वीपोंमें घूमता
 फिरता है वह गुणी मनुष्यके (सुनते ही पहुँच जाता है) वह
 सर्वथा गुणकार्य है ५३ हे वीर ! यदि वह आपके गुणोंके सुन
 लेय तो हे महासुर ! आप उसको यहाँ आया हुआ ही सम-
 झिये ॥ ५४ ॥ वज्रनाभने कहा, कि-हे शुभे पत्तिनन्दिनि !
 तू ऐसा उपाय कर जिससे वह नट मेरे नगरमें आजाय, तब तेरा
 कल्याण होगा ५५ उन हंसोंको वज्रनाभने (इस) कामके लिए
 बोड़ दिया, तब उन्होंने देवेन्द्रसे और कृष्णसे यह सब बातें
 वहीं ५६ तब अधोक्षज श्रीकृष्णने उस कर्ममें वज्रनाभका बंध करने
 के लिए और प्रभावतीका संसर्ग करनेके प्रद्युम्नको नियुक्त कर

प्रेषयासास भारत ॥ ५८ ॥ प्रद्युम्नं नायकं कृत्वा साम्बं कृत्वा
विदूषकम् । पारिपार्श्वो गदं वीरमन्यान् भैमान्स्तथैव च ५९
वारमुख्या नटीः कृत्वा तत्तूर्गसदृशास्तदा । तथैव भद्रं भद्रस्य
सहायाश्च तथाविधान् ॥ ५९ ॥ प्रद्युम्नविहृतं रम्यं विमानं
ते महारथाः । जग्मुरान्ह्य कागार्थं देवानाममिर्ताजसाम् ॥ ६१ ॥
एकैकस्य समा रूपे पुरुषाः पुरुषस्य ते । स्त्रीणां च सदृशाः सर्वे
ते स्वरूपैर्नराधिपः ६२ ते वज्रनगरस्याथ शाखानगरमुत्तमम् ।
जग्मुर्दानवसकीर्णं सुपुर नाम नामतः ६३ छ छ

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि वज्रनाभ-

प्रद्युम्नोत्तरे प्रद्युम्नादिगमने द्विनवतितमोऽध्याय ६२

वैशम्पायन उवाच । तदा सुपुरवासीनामसुराणां नराधिप ।

ददावाज्ञां वज्रनाभो दीयतां शृद्दमुत्तमम् १ आतिथ्यं क्रियता-

दिया-५७ उस समय हरिने दैवी गायिका आश्रय लेकर (भद्र
नामक) वह नट बनाया, नटका बेष बना कर भीमवंशियोंको
भेजने लगे ५८ उन्होंने प्रद्युम्नको नायक, साम्बको विदूषक बना
कर और गदको पारिपार्श्वमें (श्रुतिधर) बनाकर तथा दूसरे
भीमवंशियोंको वारमुख्या नटी बनाकर भेज दिया, वे सब
वेश्याओंकी समान गाना बजाना जानते थे, इस प्रकार उन्होंने
कल्पवाणमय (भद्रवेशधारी) भद्रके सहायकोंको भेजा ५९ ६०
वे महारथी प्रद्युम्नके रचे हुए रमणीय विमानोंमें चढ़ कर अमित
श्रोज वाले देवताओंका कार्य करनेके लिए चले ६१ वे (भीम-
वंशी) पुरुष (नटके) एक एक गनुष्यके समान रूप वाले थे वे
सब राजे रूपमें स्त्रियोंकी समान भी बन गए ६२ तदनन्तर वे
वज्रनगरके शाखानगर दानवोंसे घिरे हुए सुपुर नामक उत्तम
नगरको चल दिये ॥ ६३ ॥ वयानवेवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-तब हे राजन् ! वज्रनाभने सुपुर

मेपां बहुम्बमुतागनम् । वासांसि स विचित्राणि मृग्याय जन-
रञ्जनम् २ भर्तुराज्ञां समालम्बा तथा चक्रुरव सर्वाशः । पूर्वभ्रुतो
नटः भासः कौतूहलमजीजनत् ॥ ३ ॥ नटस्याग ददुदत्याः सत्कारं
परया मुदा । पर्यागार्थं ददुश्नापि रत्नानि सुवहून्यथ ४ ततः
स नवृते तत्र वरदत्तो नटस्तथा । स्वपुरे पुरवासीनां परं हर्षं
सपादयत् ॥ ५ ॥ राणागणं महाकाव्यमुद्देश्यं नाटकीकृतम् ।
जन्म विष्णोरमेगस्य राज्ञसेन्द्रवधेसग ॥ ६ ॥ लोमगादो दश-
रथ ऋष्यशृङ्गं महामुनिम् । शान्तामप्यानयागास गणिकाभिः
सहानघ ॥ ७ ॥ रामलक्ष्मणशत्रुघ्ना भरतश्चैव भारत । ऋष्य-
शृङ्गश्च शान्ता च तथा रूपैर्नटैः कृताः ॥ ८ ॥ तत्कालजीविनो वृद्धा

नगरमें रहने वाले दैत्योंको आज्ञा दी, कि-इनको उत्तम घर
दो ॥ १ ॥ इनका अतिथिसत्कार करना चाहिये, और इन्हें
बहुतसे रत्नोंकी भेंट दो और विचित्र वस्त्र दो और इनको सुखी
करनेके लिए जनरञ्जा (मनुष्योंको प्रसन्न करने वाली सामग्री)
दो ॥ २ ॥ उन्होंने स्वागीकी आज्ञा पाकर वैसा ही किया; पहिले
सुना हुआ भद्र नामक नट आगया, इस बातसे उनको कौतूहल
होने लगा ॥ ३ ॥ तब दैत्योंने परमप्रसन्नतासे नटका सत्कार
किया और वेष-धारण करनेके लिए बहुतसे रत्न दिए ॥ ४ ॥
तब वह वरदत्त (नटका वेष धारण करने वाला) नट नाचने
लगा, उससे पुरवासियोंको परमहर्ष होने लगा ॥ ५ ॥ (उन्होंने)
राज्ञसेन्द्र राणका वध करनेके लिए (जिसमें) अमेय विष्णुके
जन्म (का वर्णन है उस) महाकाव्य रामायणका नाटक करना
आरम्भ कर दिया ॥ ६ ॥ हे अनघ भारत ! उस समय लोम
गाद और दशरथ महामुनि ऋष्यशृङ्गको और शान्ताको
गणिकाओंके साथ लोआए ॥ ७ ॥ नटोंने हे भारत ! राम लक्ष्मण
भरत शत्रुघ्न ऋष्यशृङ्ग और शान्ता वैसे ही रूपवाली बना दीं ।

दानवा विस्मयं गताः । आचवक्षुष तेषां चै स्नातुस्तान्गन्धु-
तम् ॥६॥ संस्काराभिनयो तेषां प्रस्ताचानां च धारणम् । दृष्ट्वा
सर्वे प्रवेशं च दानवा विस्मयं गताः ॥ १० ॥ ते रक्ता विस्मयं
नेदुरसुराः परया मुदा । उत्थायोत्थाय नाट्यस्य विपद्येषु पुनः
पुनः ॥ ११ ॥ ददुवस्नायि तुष्टाश्च ग्रैवेयवलयानि च । द्वारान्
मनोहराश्चैव हेमग्रीहयुधूपितान् ॥१२॥ पृथगर्थेषु दत्तेषु लोकैस्तु
तुष्टुर्नटाः । असुरांश्च मुनीश्चैव गात्रैरभिजनैरपि ॥ १३ ॥
भोपतं वज्रनाभस्य शाखानगरवासिभिः । नटस्य दिव्यरूपस्य
नरेन्द्रागमनं तदा ॥ १४ ॥ पुरा श्रुताथो दैत्येन्द्रः प्रपेयागास
भारत । आनीयतां वज्रपुरं नटोऽस्ताविति हर्षितः ॥१५॥ दान-
येन्द्रवचः श्रुत्वा शाखानगरवासिभिः । नीता वज्रपुरं रम्यं नट-
धी । ८ ॥ उस (रामाचतार) के समयके जीवित दृष्ट दानव
उस से नट विस्मित होगए, हे राजन् ! उन्होंने उनके ही सामान
रूप बनलागा है ॥ नटोंके संस्कार (वेपथारण), अभिनय
(काणको दिव्याना), और नटके पथग दर्शनके देखकर सब
दानव विस्मित होगए ॥ १० ॥ वे असुर उस खेलके देखने
अनुरक्त हं परमपतन्नतासे गर्जना करने लगे और सन्तुष्ट हो
नाटकके बी में बारबार उठकर वस्त्र फण्टी कंकण और सुवर्ण
तथा वैदूर्य मणिसे विभूषित मनोहर धार देने लगे ॥११॥ राजव
प्राणी उन नटोंके भिन्न २ पदार्थ देने लगे तब वे नट गसन्न
होकर असुर और मुनियोंके शरीर और देशकी पशंसा कर स्तुति
करने लगे १३ हे नरेन्द्र ! उस मगध शाखानगरवासियोंने वज्र
नाभके नाम नटके आगमन (का पथार) में १४ राजाने
उसरी पहिले ही पशंसा सृज रखली थी, हे राजन् ! इस लिए
उस दैत्येन्द्रने धर्तहर्षित हो सामानार भेजा, कि उस नटको
रजपुमें ने १५ दानयेन्द्रके वरदामे त

नटनेपेण यादधाः ॥ १६ ॥ आयासथ ततो दत्तः सुकृतो विश्व-
 कर्मणा । एष्टव्यं यच्च तत्सर्वं दत्तं शतगुणोत्तरम् ॥ १७ ॥ अथ
 कालोत्सवं चक्रे वज्रनाभो महासुरः । कारयामास रम्यं च चमू-
 र्घाटं गृह्णवान् ॥ १८ ॥ ततस्तान् पत्रिविश्रान्तान् प्रेक्षार्थाय
 प्रनन्दयत् । दत्त्वा रत्नानि भूमीणि वज्रनाभो महाबलः ॥ १९ ॥
 उपविष्टश्च तान् द्रष्टुं सह ज्ञातिगिरात्मजान् । छन्ने चान्तःपुरं
 स्थाप्य चञ्चुट्श्ये नराधिपः ॥ २० ॥ भौमाणि वद्धनेपथ्या नट-
 वेपथरास्तथा । कार्यार्थं भीमकर्मणो नृत्यार्थमुपचक्रमुः ॥ २१ ॥
 ततो घनं समुत्परं सुरजानकभूषितम् । तन्नीस्वरगणैर्विद्वानतो-
 ध्यानन्वादायन् ॥ २२ ॥ ततस्तु देवगान्धारच्छालिन्यं श्रवणा-
 मृतम् । भौमस्त्रियः प्रजमिरे पनःश्रोत्रमुखाधरम् ॥ २३ ॥ आ-

में रहने वाले दैत्य नटवेपथारी यादनोंके रमणीय वज्रपुरमें लिवा
 गए ॥ १६ ॥ (उस समय दैत्येन्द्रने) उनको विश्वकर्माका
 घनाया हुआ भवन दिया और चाहने योग्य सब वस्तुएँ भी
 सौगुणी देदीं १७ तदनन्तर वज्रनाभने महाकाल रुद्रका उत्सव
 किया, उसने प्रसन्न होकर चमूवाटको रमणीय बना दिया १८
 तब उस महाबली अश्वत्थामने सावधानीसे बैठे हुए नटोंके बहुत
 से रत्न देकर उनसे (खेल) दिखानेके लिए कहा १९ हे राजन् !
 उस समय वह आत्मवान् छन्न(चिक पड़े)नेनदृश्य स्थानमें अपने
 अन्तःपुरको छीटा कर अपने आप भी अपने मित्रोंके साथ बैठ
 गया २० नटवेपथारी भयंकर पराक्रमी भीमवंशी भी अपना
 काम दिग्बानेके लिए नेपथ्यमें (वेश) बना नृत्यथी तगारी करने
 लगे २१ वे घन (कौमीका छन्न आदि) समुपिर (छेददार
 नेणु आदि) सुरजा (मर्दज), और तन्नीके स्वरों वाली (वीणा)
 को बजाने लगे २२ उस समय भीमनिशिर्षी भी लार्द हुई चारों-
 गनाएँ मन और कानोंके सुन देने वाले सुननेमें अमृती सगान

गान्धारग्रामरागं गङ्गावतरणं तथा । विद्धगासारितं रम्यं जगि-
 रेश्वरसम्पदा ॥ २४ ॥ लयतालसमं श्रुत्वा गंगावतरणं शुभम् ।
 असुरास्तोपयागास उच्ययोत्थाय भारत ॥२५॥ नाग्निं च वादि
 यागास प्रद्युम्नो गद् एव च । साम्बश्च वीर्यसम्पन्नः कार्यार्थं
 नटतां गतः ॥ २६ ॥ नाद्यन्ते च तदा श्लोकं गंगावतरणाश्रि-
 तम् । रौक्मिण्योपस्तदोवाच सम्यक्स्वविनयान्वितम् ॥ २७ ॥
 रम्भाभिसारं कौबेरं नाटकं ननृतुस्ततः । शूरो रावणरूपेण
 रम्भावेपं मनोवती ॥ २८ ॥ नलकूबरस्तु प्रद्युम्नः साम्बस्तस्य
 विदूषकः । कैलासो रूपितश्चापि गायया यदुनन्दनीः ॥ २९ ॥
 शापश्च दत्तः क्रुद्धेन रावणस्य दुरात्मनः । नलकूबरेण च यथा
 रम्भा चाप्यथ सान्विता ॥ ३० ॥ एतत्प्रकरणं वीरा ननृतु-

देवगांधार छालिचयके गाने लगी २३ तथा गांधार आदि स्वर्गो
 वाले रागको (चसन्त आदि) रागको विद्ध (मिश्रराग) को,
 और रमणीय आसारित (मूर्च्छित) रागको गङ्गावतरण नामक
 गीतमें गाने लगी २४हे भरतर्षशी राजन् (उस समय प्रद्युम्न)
 समान लय ताल वाले गङ्गावतरणको सुन कर उठ २ कर
 असुरोंको सन्तुष्ट करने लगा २५ अपना कार्य साधनेके लिये नट
 बने हुए प्रद्युम्न गद् और वीर्यवान् साम्ब नाग्नि नामक वाजे हो
 बचाने लगे २६ तदनन्तर मंगलपत्रोंका पाठ होचुकने पर नम्रता
 भरे गङ्गावतरणके श्लोकका उचनारण किया २७ तदनन्तर ये
 रम्भाभिसार नाम वाले कूबेर संम्बधी नाटकको खेलने लगे उस
 समय शूरो रावणका रूप धारण किया और मनोवती (वारा
 ढना)ने रम्भाका रूप धारण किया २८ प्रद्युम्न नलकूबर बन
 गया, साम्ब उमका विदूषक बन गया, फिर यदुनन्दनीने माया
 ने कैलासपर्वणको भी बना लिया २९नलकूबरने क्रोधमें भर कर
 जिम गकार रावणको शाप दिया था और रम्भाको जिसगकार

र्यदुनन्दनाः । नारदस्य मुनेः कीर्तिं सर्वज्ञस्य महान्गनः ॥३१॥
 पादोद्धारेण नृत्येन तथैवाभिनयेन च । तुष्टुवुर्दानवा वीरा भैमा-
 नापतितेजसाम् ॥३२॥ ते ददुर्वेत्रमुख्यानि रत्नान्याभरणानि
 च । हारास्तरलचिद्धाश्च वैदूर्यमणिभूपतान् ॥३३॥ विमानानि
 निचित्राणि रथाश्चाकाशगामिनः । गजानाकाशगांश्चैव दिव्य-
 नागकुलोद्भवान् ॥ ३४ ॥ चन्द्रनानि च दिव्यानि शीतानि रस-
 वन्ति च । गुरुणगुरुमुख्यानि गन्धाढ्यानि च भारत ॥३५॥
 चिन्तामणीनुदारांश्च नितिते सर्वकामदान् । प्रेक्षासु तामु वहीषु
 ददन्तो दानवास्तथा ॥ ३६ ॥ धनरत्नैर्विरहिताः कृताः पुरुष-
 सत्तम । मित्रयो दानवमुख्यानां तथैव च जनेश्वरे ॥ ३७ ॥ ततो
 हंसी प्रभावत्याः सखी प्राह प्रभावतीम् । गतास्मि द्वारका रम्यां
 भैमगुप्तामनिन्दिते ॥ ३८ ॥ प्रद्युम्नश्च मया दृष्टो विनित्ते चारु-

समझाया गा ३० इस प्रकरणके और सर्वाङ्ग महात्मा नारद
 मुनिकी कीर्तिके भीमवंशी नाच कर दिखाने लगे ॥ ३१ ॥
 वीरदानव अतितेजस्वी भीमवंशियोंके पैर उठा कर नाचनेसे
 और अभिनय करनेसे प्रसन्न होगए ॥ ३२ ॥ तब वे वहीषा २
 वस्त्र, रत्न, गहने, (वतुलमणि) तरल वैदूर्यमणियोंसे विभू-
 पित चिद्ध हार देने लगे ॥ ३३ ॥ और विचित्र विमान आकाश-
 गामी रथ और दिव्यकुलमें उत्पन्न हुए आकाशगामी हाथी (देने
 लगे) ॥ ३४ ॥ और हे भरतवंशी राजन ! वे दिव्य रस वाले
 शीतल चन्द्रपा और सुगन्धित अमर (देने लगे) ॥ ३५ ॥
 वे दानव बहुनसी तमाशा दिखाने शालियोंको सब कामनाओं
 को पूर्ण करने वाली वही २ चिन्तामणियों देने लगे ॥ ३६ ॥
 हे पुरुषसत्तम जनेश्वर ! (इम प्रकार भैमोंने) मुख्य २ दैत्योंको
 और उनकी स्त्रियोंको धनरहित कर दिया ॥ ३७ ॥ इसी समय
 प्रभावतीकी सखी हंसीने प्रभावतीसे कहा, कि-हे अनिन्दिते !

लोचने । भक्तिश्च कथिता तस्य मया तव शुचिस्मिते ॥ ३६ ॥
 तेन हृष्टेन क लश्च कृतः कमललोचने । अथ प्रदीपसमये त्वया
 सह समागमे ॥ ४० ॥ तदथ रुचिरश्रोणि तव प्रियसमागमः ।
 न ह्यात्मवति भाषन्ति मिथया भैषकुलोद्भवाः ॥ ४१ ॥ ततः
 प्रभावती हृष्टा हंसी तामिदमवनीत् । उपितासि गया वासे
 स्वप्तुर्महंसि सुन्दरि ॥ ४२ ॥ त्वगाहं सहितावासे द्रष्टुमिच्छामि
 कैशाचिम् । निःसाध्वसा भविष्यामि त्वया सह निहङ्गमे ॥ ४३ ॥
 हंसी तथेति चोवाच सखी कमललोचनाम् । आरुरोह च तद्धर्म्यं
 प्रभावत्या विहंगमा ॥ ४४ ॥ विश्वकर्मकृते तत्र हर्म्यपृष्ठे प्रभा-
 वती । सम्भिवान चकाराशु प्रद्युम्नागमनक्षमम् ॥ ४५ ॥ तस्मिन्

मैं भीमवर्षशियोसे रक्षित द्वारकापुरीमें गई थी । ३८ । हे सुन्दर-
 नयने ! हे शुचिस्मिते ! तहा मैंने प्रद्युम्नको एकान्तमें देख कर
 तुम्हारे अनुरागका वर्णन किया था ॥ ३६ ॥ हे कमललोचने !
 तव उसने प्रसन्न होकर तुम्हारे साथ समागम करनेके लिए
 प्रदीपका समय निश्चित किया है ४० इस लिए हे रुचिरश्रोणि !
 आज तुम्हारा प्रियतमसे मिलना होगा, क्योंकि-हे आत्मवति !
 भीमवर्षमें उत्पन्न हुए पुरुष मिथ्या नहीं योला करते हैं ॥ ४१ ॥
 तव तो प्रभावतीने प्रसन्न होकर उस हंसीसे कहा, कि-हे सुन्दरि !
 अब तुम मेरे घर्मों ही वस कर सोजाओ ॥ ४२ ॥ क्योंकि-
 मैं अपने भवनमें तुम्हारे (साथ) सागनेही नेशकके पुत्रको देखना
 चाहती हूँ; हे निहंगमे ! तेरे सागरहनेसे मैं निःसाध्वस (वेखटपे)
 होजाऊँगी ॥ ४३ ॥ उस समय हंसीने अपनी कमललोचना सखी
 की बात मान ली और वह आशाशचारिणी हभी प्रभावतीके
 भवन पर बैठ गई ४४ उस समय विश्वकर्माके बनाए हुए महलकी
 दक्ष पर प्रभावतीने प्रद्युम्नके आने योग्य संविधान (उपाय)
 किया ४५ उसके उपाय करचुकने पर वायुकी समान चलने वाली

कृते सन्निधाने कामगानयितुं ययौ । प्रभावतीमनुज्ञाप्य सी
 वायुसगा गतौ ॥४६॥ नटवेषपरं कामं गत्वोच्चैश्च शुचिस्मिता ।
 अद्य भूयः स भगवन् समगो वर्तते निशि ॥ ४७ ॥ तथेति प्राह
 तां कामः सा विद्वराध पत्निणी । अभ्यागता च सा हंसी प्रभा-
 वतीमथान्नवीत् । अभ्येति रौक्मिण्येतेसाशरवसायतलोचने । ८
 प्रद्युम्नो नीगमानं तु ददृशे मान्यमात्मवान् । भ्रगरैरावृतं वीरः
 सुगन्धमरिमर्दनः ॥ ४६ ॥ गिलिन्ये तत्र मान्ये तु भूत्वा मधु-
 करस्तदा । प्रभासत्यानीयमाने निदिनार्थः प्रतापवान् ॥ ५० ॥
 प्रवेशतं च तन्मान्यं स्त्रीभिर्मधुकरायुतम् । उपनीतं प्रभावत्यै
 स्त्रीभिस्तद्भ्रमर वृतम् ॥ ५१ ॥ अविदूरे च विन्यस्तं प्रभावत्या
 जनाधिप । भ्रमराग्ने ययुः सौम्य सन्ध्याकाले ह्यपस्थिते ॥५२॥
 स भैरवपवरो वीरस्तैः सद्भ्यायैर्विहीनतः । कर्णोत्पले प्रभावत्या

हंसी प्रभावतीसे कहकर प्रद्युम्नको बुलानेके लिये चली ॥४६॥
 उस शुचिस्मिताने नटवेषधारी प्रद्युम्नके पास जाकर कहा, कि—
 हे भगवन् ! वह समय आज रातको है ॥ ४७ ॥ तब प्रद्युम्नने
 उससे 'पेसा ही हो' कहा, तब वह पत्निणी लौट पड़ी और उस
 हंसीने आकर प्रभावतीसे कहा, कि—हे विशालनेत्रे ! अब
 रुक्मिणीपुत्र आरहे हैं; तू आरवात हो जा ॥ ४८ ॥ उस समय
 अरिमर्दन आत्मवान् प्रद्युम्नने मान्य (चन्दन) को जाड़े हुए
 देवा उस सुगन्धित मान्य पर भीरे भ्रूण रहे थे ॥ ४९ ॥ यह
 मान्य प्रभावतीके लिए गारहा है, इस बातको जान कर प्रतापी
 प्रद्युम्न भीरे बन कर उस मान्यसे चिपट गए ॥५०॥ स्त्रियों उस
 भीरों वाले मान्यको लेजाने लगीं और उन स्त्रियोंने वह भ्रमर
 से घिरा हुआ मान्य लाकर प्रभावतीके दे दिया ५१ हे जना-
 धिप ! वह मान्य प्रभावतीके समीप ही रख दिया गया, फिर
 हे सौम्य ! सन्ध्याका समय होने पर और भीरे चले गए ॥५२॥

निलिख्ये शनकैरिव ॥ ५३ ॥ ततः प्रभावती ह्रीमुवाच वदामि-
 चरा । उद्यत पूणान्द्र सा सगीदयातिमनोहरम् ॥ ५४ ॥ साग्य
 दहति सैंगानि मुख च परितुष्यति । औत्सुक्यं हृदि चातीव
 कोयं व्याधिरनोपधः ॥ ५५ ॥ दधद् द्विगुणगोत्सुक्यमसौ पूर्ण
 निशाकरः । नवोदितः शीतशरिः सख्यं हरति च प्रियः ५६
 न श्रेष्ठपूर्वा हि मया श्रुतगोत्रेण वंक्षितः । अहो धुमयतेज्जान
 रत्रीस्वभावस्य भिक्खल्लु ॥ ५७ ॥ क्लायामि यथा बुद्ध्या यदि
 नाभ्येति मे प्रियः । कुमुदतीगत मार्गं हा गपिष्याम्यकिंचना ।
 मदनाशीविषेणारिम हा हा दष्टा मनस्विनी ॥ ५८ ॥ शीतवीर्याः
 पूकृत्यैव जगतो ह्लादनाः सुखाः । दहन्ति मम गात्राणि किं नु
 चन्द्रभगस्तगः ॥ ५९ ॥ पूकृत्या शीतलो वायुर्नानापुष्परनो-

परन्तु वह श्रेष्ठ भीमवंशी उन सहायकोंसे रहित होकर प्रभावती
 के कर्णकमलमें धीरे-धीरे लीन होने लगा ५३ तदनन्तर वक्ताओंमें
 श्रेष्ठ प्रभावतीने पूर्ण विस्व-वाले मनोहर चन्द्रमाको उदय होते
 हुए देखकर हसीसे कहा, कि-॥५४॥ हे सखि ! मेरा शरीर
 जला जाता है और मेरा मुख सूखा जाग है तथा मेरे हृदयमें
 उत्सुकता बढ़ती जाती है, यह विना औपधिकी कौन व्याधि
 है ॥ ५५ ॥ यह अभी उदय हुआ शीतल किरणों वाला पूर्ण
 चन्द्रमा भी दुगुनी उत्सुकता बढ़ा कर मेरे साथकी मित्रताको तोड़
 रहा है ५६ मैंने पहिले प्रद्युम्नाको देखा नहीं है, मैं तो उसको
 सुनकर ही चाहने लगी थी, तब भी मेरा शरीर धुमैला (भस्म)
 हुआ जाता है, अतः स्त्रीस्वभावको भिक्कार है ॥५७॥ यदि मेरे
 प्रियतम नहीं आँसे, तो मैं अपनी बुद्धिसे उनकी (मूर्तिकी)
 पल्पना करलूंगी हाय ! क्या मेरी गति कुमुदतीसी ही होगी हाय
 हाय ! मुक्त मनस्विनीको गदनरूपी सर्पने इस लिया है ॥५८॥
 स्वभावसे ही शीतल जगत्से प्रसन्न करने वाली सुखस्वरूप

यहः । दावाग्निमदृशो मेऽद्य दन्दहीति शुभां तनुम् ॥ ६० ॥
 ततः संकल्पये एव स्थैर्या कार्यामिवात्मनः । नावतिष्ठति निर्वा-
 मनः संकल्पधर्षितम् ॥ ६१ ॥ विमनस्कास्मि मुह्यामि वेपथु-
 गहान् हृदि । वभ्रमीति च मे दृष्टिर्हा हा यामि ध्रुवं क्षयम् ॥ ६२ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि वज्रनाभ-
 पुरे मधुम्नगमने त्रिनवतिगोऽध्यायः ॥ ६३ ॥

वैशम्पायन उवाच । आविष्टेयं गया वाला सर्वथैत्यवगम्य
 तु । कार्दिणहृष्टेन मनसा हंसीगदमुवाच ॥ १ ॥ दैत्येन्द्रतनय-
 प्राप्तमवगच्छस्व गागिह । पद्मादैः सह पद्मादो भूत्वा माल्ये
 निलीय हि ॥ २ ॥ विधेयोऽस्मि प्रभाशत्या यथेष्टं गयि वर्तताम् ।
 इत्युक्त्वा दर्शयामास सुहृणो रूपमात्मनः ॥ ३ ॥ तद्धर्म्यपृष्ठं प्रभया

चन्द्रगाकी किरणें भी गया मुझे जलाने लगीं ५६ अनेक पुष्पों
 को वहाने वाला यह स्वभावसे ही शीतल वायु मेरे शुभशरीरको
 वारम्बार दावाग्निकी समान भस्मसा कर रहा है ॥ ६० ॥
 अब मैं अपने मनको स्थिर करनेका संकल्प कलें, क्योंकि-संकल्प
 विकल्पसे दबा हुआ मन निर्वाह्य होजाता है और निरचल नहीं
 होता है ६१ अरे रे ! मैं तो अनमनी हुई जाती हूँ; मूर्च्छित हुई
 जाती हूँ, और मेरा हृदय बड़ी जोरसे काँप रहा है और मेरी
 आँखें धमी जाती हैं, हाय ! हाय ! मैं तो नष्ट होजाऊँगी । ६२ ।
 तिरानवेवों अध्याय समाप्त ॥ ९३ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि—यह वाला सब प्रकार मुझमें
 आसक्त होचुकी है, यह जान कर मधुम्नने प्रसन्नमनसे हंसीसे
 यह वाग कही, कि—॥ १ ॥ तुम, दैत्येन्द्र कन्याको जता दो कि-
 में माल्यमें गौरोंके साथ गौरा वन माल्यमें छिप कर यहाँ आ
 गया हूँ ॥ २ ॥ मैं प्रभावतीका विधेय (दास) हूँ, वह मुझसे
 यथेष्ट वर्ताव करे, इस प्रकार कहनेके अनन्तर सुन्दर रूप वाले

यथा । आलिलङ्गे च सुथोणीं क्रमेण रतिकोविदः ॥ १८ ॥
 अरामयद्रहस्यैनां न चोद्वेजितवांस्तदा । अपकृष्टं चरत्यर्थं रति-
 कार्यविशारदः । उवास स तथा सार्द्धं रगन्कृष्णसुतः प्रभुः १९
 अरुणोदयकाले च ययौ यत्र नटालयम् । अकामया प्रभावत्या
 कथञ्चित्स विसर्जितः २० तामेव मनसा कांतां कान्तरूपां समु-
 द्दहन् । त ऊर्णुर्नटवेपेण कार्यार्थं भैमवंशजाः ॥ २१ ॥ प्रतीक्षन्तस्तदा
 वाक्यगिन्द्रकेशवयोस्तदा । उद्योगं वज्रनाभस्य त्रैलोक्यविजयं
 प्रति ॥ २२ ॥ प्रतीक्षन्तो महात्मानो गुह्यसंरक्षणे रताः । कश्य-
 पस्य मुनेः सत्रं यावत्तावन्नराधिप ॥ २३ ॥ देवासुराणां सर्वो-
 पागविरोधो महात्मनाम् । त्रैलोक्यविजयार्थाय यततां धर्मचारि-
 णाम् २४ एवं कालं प्रतीक्षाणां वसतां तत्र धीमताम् । सम्प्राप्तः

के मुख कमलका भ्रमरकी समान पान करक उसका आलिंगन
 किया ॥ १८ ॥ फिर उसके साथ एकान्तमें रमण किया, परन्तु
 उसको उद्विग्न नहीं किया, रतिकार्यचतुर प्रद्युम्नने उससे अप-
 कृष्ट (धीरे २) काम निकाला १९ अरुणोदयका समय आने
 पर वह जहाँ पर नटोंका निवास था तहाँको चला, उस समय
 प्रभावतीने उसको अनिच्छासे भेगा था ॥ २० ॥ वह उस मनोहर
 रूप वालीका मनमें ध्यान करता हुआ (चला गया) भीमवंशी
 कार्यके कारण इन्द्रके और केशवके वचनोंकी प्रतीक्षा करते हुए
 तहाँ नटके वेपमें रहने लगे हे राजन् ! जब तक कश्यप मुनि का
 यज्ञ हो तब तक गुह्य वातकी रक्षा करते हुए वे महात्मा वज्रनाभ
 के त्रिलोकीका विजय करनेकी प्रतीक्षा करते हुए (रहने लगे) २३
 त्रिलोकीका विजय करना चाहने वाले महात्मा धर्मात्मा देवता
 और असुरोंमें (कश्यपके यज्ञ तक) विरोध न हो (इसके लिए
 वह तहाँ पर रहते थे) ॥ २४ ॥ वे युद्धिमान् तहाँ पर इस प्रकार
 समयकी बाट देख रहे थे, कि-सब भूतोंके मनको हरने वाला

प्रावृषो रम्यः सर्वभूषणनोहरः ॥ २५ ॥ अहर्निशां च वृत्तान्तं
 प्रगच्छन्ति मनोजवाः । शक्रशेखरयोर्हताः कुमारार्णा महात्म-
 नाम् । रमे सह प्रभावत्या प्रद्युम्नशत्रुरूपया । रात्रौ रात्रौ महा-
 तेजा धार्तराष्ट्राभिरक्षितः ॥ २७ ॥ तैर्हि वज्रपुरं हंसैरसद्भिर्वा-
 सवाज्ञया । व्याप्तं नृप नटास्तास्तु न त्रिदुः कालगोहिताः २८
 दिवापि रौक्मिण्येषस्तु प्रभावत्या नृपालये । तिष्ठत्यन्तर्हितो वीरो
 हंससंघाभिरक्षितः ॥ २९ ॥ मागयास्य प्रतिच्छाया दृश्यते हि
 नटालये । देहार्पेण तु कौरव्य सिपेवेशौ प्रभावतीम् ॥ ३० ॥
 सन्नतिं विनयं शीलं लीलां दाक्ष्यमथार्जवम् । स्पृहयन्त्यसुरा
 दृष्ट्वा त्रिदृक्षां च महात्मनाम् ॥ ३१ ॥ रूपं विलासं गन्धं च मञ्जु
 भाषणथार्यताम् । तासां यादवनारीणां स्पृहयन्त्यसुरस्त्रियः ३२

रमणीय वर्ण काल आगया २५ उधर मनकी समान वेग वाले
 हंस श्रीकृष्ण और इन्द्रको प्रतिदिन महात्मा कुमारोंका समाचार
 देते रहते थे । २६। महातेजस्वी प्रद्युम्न भी धार्तराष्ट्रोंसे रक्षित
 होकर प्रतिदिन रात्रिमें अपने अनुकूल रहने वाली प्रभावतीसे
 रमण करने लगा २७। इन्द्रकी आज्ञासे तहाँ रहनेवाले हंसोंने नटों
 से वज्रपुरको व्याप्त कर दिया और कालसे गोहित असुर उनको
 न जान सके । २८ । हे वीर ! प्रद्युम्न प्रभावतीके घरमें दिन
 भर भी खिपा रहता था, बस समय हसोंके झुण्ड उसकी रक्षा
 करते थे ॥ २९ ॥ मायाके कारण प्रद्युम्नकी व्याप्त नटालयमें
 दीला करती थी और हे कौरव्य ! वह आधे देहसे प्रभावतीका
 सेवन किया करता था ॥ ३० ॥ महात्मा भीमवंशियोंकी
 सन्नति विनय शील लीला चतुरता सरलता और त्रिदृक्षाको
 देख कर असुर उनकी स्पृहा करो करते थे । ३१ ॥ असुरोंकी
 स्त्रियें यादोंकी नारियोंकी मधुर वाणी रूप विलास गन्ध
 तथा आर्पताकी स्पृहा करने लगी ॥ ३२ ॥ वज्रनाभका एक

वज्रनाभस्य तु भ्राता सुनाभो नाम विश्रुवः । दुहितृद्वयं च नृपते-
स्तस्य रूपगुणान्वितम् ॥ ३३ ॥ एका चन्द्रावती नाम्ना गुण-
वत्पथ चापरा । प्रभावत्यालयं ते तु व्रजतः खलु नित्यदा ॥ ३४ ॥
ददृशाते तु ते तत्र रतिसक्तां प्रभावतीम् । परिपप्रच्छतुश्चैव
विस्रम्भोगतां सतीम् ॥ ३५ ॥ सोवाच मम विद्यास्ति याधीता
कान्तितं पतिम् । रत्यर्थगानयत्याशु सौभाग्यं च पूयच्छति ३६
देवं वा यादवं वापि विशं सद्य एव हि । साहं रमागि कान्तेन देव-
पुत्रेण धीमना ॥ ३७ ॥ दृश्यतां मत्प्रभावेण- पूयुम्नः सुपियो
गम । ते दृष्ट्वा विस्मयं याते रूपयौवनसम्पदम् ॥ ३८ ॥ पुन-
रेवाव्रवीत्ते तु भगिनी चारुहासिनी । प्रभावती वरारोहा काल-
प्राप्तमिदं वचः ॥ ३९ ॥ देवा धर्मता नित्यं दम्भशीला महासुराः ।

भाई था वह सुनाभ नामसे प्रसिद्ध था, उस राजाके रूपवती
और गुणवाली दो कन्याएँ थीं ॥ ३३ ॥ एकका नाम चन्द्रवती
था और दूसरीका नाम गुणवती था, वे दोनों सर्वदा प्रभावती
के घर जाती रहती थी ॥ ३४ ॥ उन्होंने तर्हों प्रभावतीको रतिमें
आमक्त देखा, फिर उन्होंने अपना विश्वास करने वाली प्रभावती
से पूछा ३५ उसने कहा कि-मेरे पास ऐसी विद्या है जो पढ़ने
पर अभिलषित पतिको रमण करानेके लिए बुला देती है और
सौभाग्यवती रखती है ३६ वह देवता और दानवको भी शीघ्र
ही विवश कर ले आती है, (उसीके प्रभावसे) मैं कान्तिवान्
और बुद्धिमान् देवपुत्रके साथ रमण किया करती हूँ ३७ अब
तुम मेरे प्रभावसे मेरे परम प्यारे पूयुम्नको देखो तदनन्तर वे
दोनों रूपकी सम्पत्ति वाले पूयुम्नको देख कर विस्मयमें पड़
गई ३८ उस समय वरारोहा चारुहासिनी प्रभावतीने अपनी उन
दोनों बहिणोंसे समयानुरूप वात कही, कि-३९ देवता धर्मसे
गेम करते हैं और महाराजस दम्भी स्वभाव वाले होते हैं, देवता

देवास्तपसि रक्ता हि सुले रक्ता महासुराः ॥ ४० ॥ देवा सत्ये
 रता नित्यमनृते तु महासुराः । धर्मस्तपश्च सत्यं च यत्र यत्र जयो
 दुवम् ॥४१॥ देवपुत्रीं वरयतां पती विद्यां ददाम्यहम् । उचितौ
 मत्प्रभावेण सद्य एवोपलप्स्यथः ॥ ४२ ॥ तां तथेत्युच्यते हृष्टे
 भगिन्यां चारुलोचनाम् । परिपूच्छ भैम च कार्ग्यं तरातिमनिनी
 स पितृव्यं गदं वीरं साम्बं चाथ'ब्रवीत्तदा । रूपाश्विनौ सुशीलौ
 च शूरी च रणकर्मणि ॥ ४४ ॥ प्रभानत्युवाच । परितुष्टेन दत्ता
 मे विद्यादुर्वाससा पुंग । परितुष्टेन सौभाग्यं सदा कन्या त्वमेव
 च ॥ ४५ ॥ देवदानवपक्षाणां यंध्यास्यसि स ते पतिः । भवि-
 तेति मया चैव वीरोयमधिकान्तितः ॥ ४६ ॥ गृहीतं तदिषां विद्यां

तपसे अनुराग करते हैं और असुर सुखमें रचे पचे रहते हैं ४०
 देवता सत्यमें लगे रहते हैं और असुर सदा असत्यसे ही प्रेम
 करते हैं और जहाँ पर धर्म सत्य और तप होता है तहाँ ही विजय
 होती है ४१ इस लिये तुम देवपुत्रों को पति बना लो, मैं तुमको
 विद्या दिए देती हूँ, मेरे प्रभावसे तुमशील ही आने योग्य पतियों
 को पा जावोगी ४२ तब उस सुन्दरनेत्रा ने उन दोनों वहिनोंने
 प्रसन्न होकर ऐसा करना स्वीकार कर लिया, तदनन्तर पतिका
 मान रखने वाली प्रभावतीने इस कामको अपने पतिसे कहा ४३
 तब उसने अपने चाचा गद और वीर साम्ब को बताया, कि ये
 दोनों रूपवान् सुशील और रणकर्ममें शूर हैं ४४ वैशम्पायनजी
 ने कहा, कि- (प्रभावतीने अपना वहिनोंसे कहा, कि-) दुर्वासा
 ऋषिने प्रसन्न होने पर मुझे यह विद्या दी थी और उन्होंने मुझ
 पर प्रसन्न हो कर मुझे सौभाग्य और कन्यात्व (कर्मानुयत्त्व)
 दिया है ४५ (उन्होंने मुझसे कहा था, कि-) तू देवता गन्धर्व
 और दानवोंमेंसे जिसको चाहेगी वह तेरा पति होजायेगा तब
 मैंने इन वीरकी इच्छाकी थी ४६ इस लिये यदि तुम इस विद्या

सद्यो वा प्रियसंगमः । ततो जगृहत्तुर्हृष्टे विद्यां तां भगिनीमुखात्
 दध्यतुर्गदसाम्बो च विद्यामम्यस्य ते शुभे । तौ प्रद्युम्नेन सहितौ
 मविष्टौ भैमनन्दनौ ॥४८॥ प्रच्छन्नौ मापया वीरौ कार्ष्णिना
 मायिना नृप । गान्धर्वेण विवाहेन तावत्परिवलार्दनौ ॥ ४९ ॥
 पाणि जगृहत्तुर्वीरौ मन्त्रपूर्व सतां प्रियौ । चन्द्रवत्या गदः स्रम्भो
 गुणवत्या च कैशविः ॥ ५० ॥ रेगिरेऽसुरकन्याभिर्वीरास्ते गदु-
 पुङ्गवाः । मार्गमाणास्त्वनुज्ञां ते शक्रकेशवयोस्तदा ॥ ५१ ॥
 इति श्रीमहाभागे विलेपु हरिवंशे विष्णुपर्वणि प्रभावती-
 पाणिग्रहणे चतुर्णवतितमोध्यायः ॥ ६४ ॥

वैशम्पायन उवाच । नपो नभस्येव निरीक्ष्य मासि काम-
 स्तदा तोयददृन्दकीर्णाम् । प्रभावती चारुविशालनेत्रामुवाच
 पूर्णेन्दुनिक शक्रः ॥१॥ तवाननाभो वरगात्रि चन्द्रो न दृश्यते
 को ग्रहः कर खोगी तो शीघ्र ही तुम प्रिय पुरुषसे मिल
 ससोगी ४७ तदनन्तर उन दोनों शुभ कन्याओंने उस विद्याका
 अभ्यास कर गद और साम्बका स्मरण किया, कि-इतनेमें
 मायावी कृष्णके पुत्रकी मायासे टके हुए वे दोनों भीगनन्दन
 प्रद्युम्नके साथ तहाँ आगए सज्जनोंके पिय उन दोनों अरिदमना
 ने भी गान्धर्व विवाहमे उन कन्याओंके हाथ पकड़े थे; उस समय
 गदने चन्द्रवतीका हाथ पकड़ा था और साम्बने गुणवतीका हाथ
 पकड़ा था ४९-५० तदनन्तर वे यदुपुंगव वीर इन्द्र और केशव
 की आज्ञाकी बात देखते हुए असुरकन्याओंसे रमण करने लगे ५१
 चौरानगेंवाँ अध्याय समाप्त ६४

वैशम्पायनजीने कहा, कि-पूर्ण चन्द्रमाभी समान खले हुए
 मुख वाले प्रद्युम्नने भाद्रपद मासमें आकाशको बादलोंसे घिरा
 हुआ देख कर सुन्दर और विशाल नेत्रों वाली प्रभावतीसे कहा
 कि-१ हे सुन्दर अंगों वाली ! हे सुन्दर अन्तररहिा जंघाओं

सुन्दरि चारुविम्बः । त्वत्केशपाशपूतिर्मनिरुद्धो बलाहकैश्चाल-
निरन्तरोरु ॥ २ ॥ संदृश्यते सुध्रु तद्विद्वनस्था त्वं हेगचार्याभर-
णान्वितेव । सुञ्चन्ति धारांश्च घना नदन्तस्त्वद्वारपट्टेः सदृशा
बराङ्गि इ घनपद्देशेषु बलाहकपङ्क्तिस्त्वदन्तर्पङ्क्तिपूतिमा विभान्ति ।
निपग्नगङ्गानि सरित्सु सुध्रु न भान्ति गोयानि रयाकुलानि ॥४॥
अपी घना वायुवशोपगता बलाहकमालापलचारुदन्ताः । अन्यो-
न्यमभ्याहनि तृणवृत्ता बनेषु नागा इव शुक्लदन्ताः ॥ ५ ॥ धनु-
स्त्रिवर्णं वरगात्रि पश्य कृतं तत्रापङ्गमिवाननस्यम् । विभूषयन्तं
गगनं घनांश्च पूहर्षणं कामिनस्य कान्ते ॥६॥ घनान् नदन्तः
प्रतिनर्दमानान्निरीक्ष्य सुश्रोणि शिखीन्ग्रहृष्टान् । समाह्वानुद्धत-

बालो ! हे सुन्दरि ! तुम्हारे मुखकी समान आभावाला सुन्दर
विम्बधारी चन्द्रमा तुम्हारे केशपाशरूपी बादलोंसे ढकनेके कारण
नहीं दीखता ॥ २ ॥ सुध्रुणके सुन्दर आभूषणोंसे निभूषित
तुम मेघोंके मध्यमें विराजमान विजलीकी समान दीख रही हो,
हे वराङ्गि ! ये बादल गर्ज कर, तुम्हारी वरपट्टिकी समान धाराएँ
बहा रहे हैं ॥ ३ ॥ बादलोंमें घूमती हुई बगलियोंकी पङ्क्ति
तुम्हारे दातोंकी पङ्क्तिकी समान शोभा देरही है, हे सुध्रु ! नदियों
में कमलोंको डुबाने वाले वेगवान् जल आकुल होनेके कारण
शोभारहित दीख रहे हैं ॥ ४ ॥ और जैसे बनोंमें श्वेत दाँतोंवाले
हाथी परस्पर मार पीट करनेके लिये तगार होजाते हैं, इसी प्रकार
ये बगलोंकी माला रूप सुन्दर श्वेत दाँतों वाले मेघ वायुके वश
हो परस्पर लड़नेके लडगत हो रहे हैं ५ हे सुन्दरपाङ्गि ! तुम सुख
में स्थित अपने अङ्गोंकी समान आकाशको और मेघोंको भूषित
करते हुए इस तिरंगे धनुषको देखो, हे कान्ते ! यह कामियोंको
हर्षित करने वाला है ॥ ६ ॥ हे सुश्रोणि ! बादलोंको गर्जते हुए
देख कर अपनी प्रियाओंको मनोहर लगने वाले वृत्तको मयूर

पिच्छभारान्प्रियाभिरामानुपनृत्यमानान् ॥ ७ ॥ इम्होषु चान्ये
शशिपाण्डुरेषु राजन्ति सुश्रोणि मयूरसंघाः । सुहूर्तशोभामतिचारु-
रूपां दन्वा पतन्तो बलभीपुटेषु ॥ ८ ॥ प्रक्लिन्नपक्षास्तरुमस्तत्रेषु
सुहूर्तचूडागणितानि विधाय । प्रयान्ति भूमिं नवशाह्वलानामाशंक-
माना घृतचारुदेहाः ॥ ९ ॥ प्रवाति धारान्तरनिःसृतश्च सुखो
ऽनिलश्चन्दनर्षकशीतः । कदम्बसर्जार्जुनपुष्पभूतं समावहन् गन्ध-
मनङ्गवन्धुम् ॥ १० ॥ रतिश्रमस्वेदविनाशहेतुर्नवोदभारानगने च
हेतुः । न गारुणः स्याद्यदि चारुगात्रि न मेघकालौ मम बल्लभः
स्यात् ॥ ११ ॥ एवं विधेषु प्रियसंगमेषु रतावसाने मदुपैति वायुः ।
रतिश्रमस्वेदहरः सुगन्धी ततः परं किं सुखमस्ति लोके ॥ १२ ॥
जलाप्लुतानीक्ष्य महानदीनां सुगात्रि- हंसाः पुलिनानि हृष्टाः ।

आदरपूर्वक इर्ष्या होकर अपनी पूँछको हिला २ कर कर रहे हैं
(उनको देख कर) ॥ ७ ॥ छपरों पर गिरते हुए मयूर सुहूर्त
भरके लिए छपरोंको परमसुशोभित कर चन्द्रमाकी सगान श्वेत
अर्थात् चूनेसे पुते हुए गहलोंपर विराजमान हो रहे हैं । ८ ॥ भीमे
हुए पंखोंवाले सुन्दर शरीरधारी मयूर वृत्तोंकी चोटियोंपर क्षण
भरके लिये चूडागणिरूप बनकर नई घास वाली भूमिमें (वृत्तों
की सगानगामी) आशङ्का करते हुए बैठने हैं । ९ ॥ वर्षाके बीच
में से निकला हुआ जिससे हुए चन्दनकी सगान शीतल कामदेव
के बन्धु कदम्ब सर्ज और अर्जुन वृत्तोंके पुष्पोंकी सुगन्धि को
घहाता हुआ यह वायु चल रहा है १० रतिके श्रम और पसीने
को शान्त करनेवाला तथा नवीन मैरोंको लानेवाला वायु यदि
नहीं होता तो हे सुन्दाकि । तो यह मेघकाल मुझे अच्छा ही नहीं
लगता ॥ ११ ॥ इस प्रकारके प्रियसंगमोंमें रतिके अन्तमें रतिके
श्रम और पसीनेको शान्त करनेवाला जो सुगन्धित वायु चलता
है उससे अधिक सुख इस लोकमें और क्या है ॥ १२ ॥ हे सुन्द-

गताः श्रमं मानसवासलुब्धाः ससारसाः क्रौञ्चगणानुविद्धाः १३
 न भान्ति नद्या न सरसीस चैव ह्यतिविषीषायत-भारुनेत्रे । गतेषु
 हंसेष्वथ सारसेषु रथांगतुन्याहयनेषु चैव ॥ १४ ॥ भोगैकदेशेन
 शुभं शयानं ध्रुवं जगन्नाथमुपेन्द्रमीशम् । निद्राभ्युपेता वरकाल-
 सज्जा श्रियं मणाम्योत्तरचारुरूपाम् ॥ १५ ॥ निद्रायमाणे भग-
 वत्पुत्रे मेधावराक्रान्तनिशाकरोध । पद्मामलाभः कमलायताक्षि
 कृष्णस्य वक्षानुकृतिं करोति ॥ १६ ॥ कदम्ब-नीपार्जुनकेतकानां
 स्रजो ध्रुवं कृष्णमुपानयन्ति । पुष्पाणि चान्यान्यवृत्तवः समस्ताः
 कृष्णात् मसादानभिकाञ्जमाणाः ॥ १७ ॥ नागारचरन्तो विपदिग्ध-
 वक्त्राः स्पृशन्ति पुष्पाण्यपि पादचान्गान् । पेपीपमाणान् भ्रम-
 राणि ! सारस क्रौञ्च और हंस महानदियोंके रेतीले तटोंको जल
 में हूँ हूँ देख कर मान सरोवरमें बसनेके लोभसे (चढ़नेका)
 परिश्रम कर चले गए हैं १३ सारसों और चक्रवाँकी समान वाली
 बोलनेवाले हंसोंके चले जाने पर हे सुन्दरनेत्रे ! यह नदी और
 तालाब शोभा रहित होनेसे शोभा नहीं देते ॥ १४ ॥ जगत्के
 स्वामी इन्द्रके छोटे भाई प्रभु विष्णुको सर्पके एक देशरूप शुभ
 शयन पर शयन करता हुआ देखकर श्रेष्ठसमयको जाननेवाली
 निद्रा अतिमनोहर रूपवाली लक्ष्मीको मणाम कर भगवान् विष्णु
 को प्राप्त होगई है (तात्पर्य यह है, कि-भगवान्के सोने पर लक्ष्मी
 जाग रहा है) ॥ १५ ॥ हे कमलकी समान विशाल नेत्रों वाली !
 भगवान् उपेन्द्रके सो जाने पर कमलकी समान निर्मल आभावाला
 चन्द्रमा मेघ रूपी वस्त्रसे ढाया हुआ कृष्णके मुखकी नवलसी कर
 रहा है ॥ १६ ॥ यह सस्पष्ट अनुपम मणामयश श्रीकृष्णसे मसाद
 की इच्छा कर कदम्ब नीप अर्जुनके पुष्पोंको और इनकी मालाओं
 को सर्वदा कृष्णकी ही भेंट करना चाहती हैं ॥ १७ ॥
 भ्रमरोंसे गिये जाते हुए पुष्पोंको और हत्तीको विष से सने हुए

रैर्जनानां कौतूहलं ते जनयन्त्यतीव ॥१८॥ तोयातिभाराम्बुद-
 वृदनद्धं नभः पतिष्यन्तमिवाभिवीक्ष्य । निपानगम्भीरमभिन्नवृष्टं
 मनोहरं चारुमुखस्तनोरु ॥ १९ ॥ बलाकमालाकुलमाल्यदाम्ना
 निरीक्ष्य रम्यं घनवृन्दमेतत् । सस्यानि भूमावभिवर्षमाणं जग-
 द्दितार्थं विपलांगगष्टे ॥ २० ॥ जलावलम्बाम्बुदवृन्दकर्षी घर्षे-
 र्घनान्योधयतीव त्रायुः । प्रवृत्तचक्रो नृपतिर्वनस्थान् गजान् गजैः
 स्त्रौरिव वीर्यहस्तान् ॥ २१ ॥ अभीममग्धो विसृजन्ति मेघाः पूतं
 पवित्रं पवनैः सुगन्धि । हर्षावहं चातकवर्हिणानां वराण्डजानां
 जलदप्रिगाणाम् ॥ २२ ॥ प्लवंगमः षोडशपक्षशापी विरौति
 गोष्ठः सह काग्निनीभिः । ऋचो द्विजातिः प्रियसत्यधर्मा यथा

मुख वाले घूषते हुए सौंप छू कर गनुष्गोंको अति विस्मित कर
 रह हैं ॥१८॥ जलके बड़ेपारी भार और बादलोंके झुँडोंसे गुथा
 हुआ आकाश तुम्हारे सुन्दर मुख स्तन और जंघाओंको देखकर
 पशुओंके जल पीनेके मनोहर स्थानको वर्षासे अभिन्न करता हुआ
 सा गिरना चाहता है १९ हे निर्मला अंगयष्टिवाली ! जगत्का दित
 करनेके लिये भूमिमें धान्योंको बरसाते हुए वगलियोंकी मालारूप
 पुष्पोंकी मालासे रमणीय इन बादलोंके झुँडोंको देखकर, जिसकी
 आड़ा चलती होती है ऐसा राजा वनमें रहने वाले वीर्यसे उद्धत
 जंगली हाथियोंको जैसे अपने हाथियोंसे लड़ाता है इसीप्रकार यह
 जलको अबलम्बन देने वाले मेवोंके झुण्डोंको खेंचने वाला वायु
 बादलोंसे बादलोंको लड़ा रहा है २१ यह मेघ चातक और मोरोंको
 और पेघोंको मिय समझने वाले श्रेष्ठ पक्षियोंको हर्षदेनेवाले
 पवनोंसे सुगंधित और पवित्र आकाशके जलको बरसा रहे है २२
 वर्षा ऋचुके सोलह पक्षोंमें शयन करने वाला गोष्ठ (की समान
 दृष्टिसे प्रवहता हुआ) मेटक अपनी स्त्रियोंके साथ इस प्रकार शब्द
 कर रहा है जिस प्रकार कोई सत्य और धर्मके मिय समझने

सुशिष्यैः परिवार्यमाणः ॥ २३ ॥ गुणो गहांस्तोयदकालजोयं
 प्रबुद्धमेघस्वनभीषिता यत् । परिवर्जन्तः परिवर्द्धयन्ति त्रिनापि
 शय्यासमयं प्रियाणाम् ॥ २४ ॥ दोषोयमेकः सलिलागमस्य पां
 मत्युदारान्वयवर्णशीले । न दृश्यते यत्तत्र वक्रतुल्यो घनग्रहग्रस्त-
 तनुः शशांकः ॥ २५ ॥ मटश्यते भीरु यदा शशांको घनांतरस्थो
 जगतः प्रदीपः । तदानुपश्यन्ति जनाः प्रहृष्टा बन्धुं प्रवासादिव
 सन्नितृप्तम् ॥ २६ ॥ विलापसाक्षी प्रियहीनितानां संदृश्यते भीरु
 यदा शशांकः । नेत्रोत्सवः प्रोपितकामुकानां दृष्ट्वैव कान्तं भव
 तीत्यकीर्षि- ॥ २७ ॥ नेत्रोत्सवः कान्तसमागतानां दावाग्नितुल्यः
 प्रियहीनितानाम् । तेनैव देहेन वराङ्गनानां चन्द्रोपि तावत् प्रिय-

वाला ब्राह्मण अपने शिष्योंसे घिर कर ऋचाओंका पाठ कर रहा
 हो ॥ २३ ॥ वर्षाकालका यह बड़ा भारी गुण है, कि-वह जगा
 कर मेघोंके स्वरसे डरा दे ॥ है और शय्या-समयके बिना भी
 कामिनिये आलिङ्गन कर प्रियपुरुषोंके कामको बढ़ा दे ॥ २४ ॥
 हे प्रशंसनीय कुल अवस्था और शील वाली ! मुझे वर्षाऋतुमें
 एक यही दोष लगता है, कि-तुम्हारे मुखकी समान चन्द्रमा
 बादलरूपी ग्रहोंसे ग्रस्त होनेके कारण नहीं दीखता है ॥ २५ ॥
 हे भीरु ! मेघोंके बीचमें बिराजमान जगत्का दीपक चन्द्रमा जब
 दीख जाता है तब उसको देख कर मनुष्य इस प्रकार प्रसन्न होते
 हैं, कि-जिस प्रकार प्रवाससे लौटे हुए बन्धुको देखकर प्रसन्न
 होते हैं ॥ २६ ॥ हे भीरु ! प्रियोंसे हीन व्यक्तिगोंके विलापका
 साक्षी जिस समय दीखता है मैं समझता हूँ उस समय मनुष्योंके
 नेत्र इस प्रकार खिल जाते हैं जिस प्रकार परदेशमें रहने वाले
 कामुकोंके मन प्रियपुरुषोंके देख कर खिल उठते हैं ॥ २७ ॥ एक
 ही देहधारी चन्द्रमा स्वामीके पास रहने वाली स्त्रियोंके नेत्रोंको
 खिला देता है और प्रियतमरहित स्त्रियोंके लिये दावाग्निकी

विप्रियश्च २८ । विनापि चन्द्रेण पुरे पितृभ्यो यतः प्रभा चन्द्र-
 गभस्तिगौरी । गुणा गुणारचन्द्रमसो न वेत्ति यतस्ततोहं प्रश-
 शंसिष्ये ॥ २६ ॥ अथाप यो ब्रह्मण्यराज्यमीदृशो दुरापमन्यैः
 सुकृतैस्तपोधिः । गायन्ति विप्रा पवमानसङ्गं समागवाः पर्वणि
 चाप्युदारम् ॥ ३० ॥ पिता बुधस्योत्तररीर्यकर्मा पुरुरवा यस्य
 सुतो नृदेवः । माणाग्निरीडयोग्निगजीजनयो नष्टं शशीगर्भभवं
 भवात्मा ॥ ३१ ॥ बभूव पश्चाच्चक्रमे महात्मा पुरोर्दशीमत्सरसां
 वरिष्ठाम् । पीतः पुरा योमृगमर्षदेहो मुनिपवीरैर्षरगात्रिघोरैः ३२
 नृपः कुशाग्रैः पुचरेव यश्च धीमानतोग्निर्दिवि पूर्यते च । आयुश्च
 वशो नहुपथ यस्य यो देवराजत्वपन्नाप वीरः ॥ ३३ ॥ देवाति-

समान होता है इस प्रकार चन्द्रमा खिगोंको मिय भी लगता है
 और अमिय भी लगता है २८ हे चन्द्रमाकी किरणोंकी समान
 गौर वर्णवाली। न्हारे पिताके घ'में चन्द्रमाके विनाभी(तुम्हारी)
 प्रभा फैलती रहती है इस लिये मैं इन गुणोंको चन्द्रमाके गुण
 नहीं समझकर उमकी अधिक प्रशंसा नहीं कर सकता ॥ २६ ॥
 और पुण्यत्माओंको तपसे भी दुष्प्राप्य ब्राह्मणोंका राज्य जिन्हों
 ने पाया है और यज्ञके समय, इकट्ठे हुए ब्राह्मण दाता पवमान
 संज्ञक जिन सोम ही स्तुति करते हैं ३० श्रेष्ठ और धीर्यसम्पन्न
 राजा पुरुरवा जिनका पुत्र है ये बुधके पिता माणाग्निभस्वरूप,
 पूजनीय जिन शशीके गर्भमें उत्पन्न हुए अग्निको विग भवात्मा
 अर्थात् रुद्रके शिर पर स्थित, इन्द्रके बालेने उत्पन्न किया है ३१
 जिन महात्माने पीत हो अप्सराओंमें श्रेष्ठ वर्धशीकी इच्छाकी
 थी और हे सुन्दरात्रि ! भयंकर मुनि पशले जिनके अमृतमय सारे
 देहको पीगए थे और जिसके बंशमें उत्पन्न हुआ बुद्धिमान् राजा
 आयु यज्ञोंकी परम्परासे अग्निस्वरूप होकर स्वर्गमें पूजा पाता

देवो भगवान् प्रसूतो वंशे हरिर्यत्र जगत्प्रयोता । भौगः मयीरः सुर-
 कार्गहेनोर्यः सुभ्रु दत्तस्य वृत्तः सुगाभिः ॥ ३४ ॥ त्रभुव राजाथ
 वसुध यस्य वंशं महात्मा शशिषंशदीपः । यश्चक्रवर्तित्वगवाप
 वीरः स्तौः कर्मणिः शक्रसमवभाषः ॥ ३५ ॥ यदुभ राजा शशि-
 वंशमुच्यो योऽवापमहामभिराजभाषम् । भोजाः कुले यस्य नरा-
 धिषस्य वीराः प्रसूताः सुरराघवुभ्याः ॥ ३६ ॥ न कूटकथस्य
 नृपोस्मि वंशे न नास्तिको नीचवृत्तिफोपि वाथ । अभ्रदधानोप्यथ
 वा ददर्पः शीर्गेण भो वारियहान्निहीनः ॥ ३७ ॥ वंशे बधूस्त्वं
 श्लक्ष्णलासताक्षि । ध्वो गुणानामतिपात्रभूता । कुरुप्रणामं शिख-
 राग्रदन्नि तस्य त्वमीशस्य सतां प्रियस्य ॥ ३८ ॥ नारायणाः

है और जिसके वंशमें उत्पन्न हुए वीर नहुपने देवराजपन पाया
 है ३३ और जिसके वंशमें हे सुभ्रु ! दत्तकी कन्याओंसे घिरेहुए
 जगत्को रचने वाले देवेश्वर, भगवान् देवताओंका कार्य करनेके
 लिये उत्पन्न हुए हैं ॥ ३४ ॥ शशिवंशका दीपकरूप महात्मा
 राजा वसु जिसके वंशमें उत्पन्न हुआ है, और उस इन्द्रकी सगान
 प्रभाव वाले वीर वसुने अपने कर्मोंसे चक्रवर्तीपना पाया है ३५
 शशिवंशमें मुख्य राजा वसुने, पृथ्वीमें अधिराज पद पाया था,
 उस नराधिपके कुलमें देवेन्द्रकी समान भोग उत्पन्न हुए हैं ३६
 उसके वंशमें कपटका बर्ताव करने वाला, नारिकेल कायर झली
 और कमलकी समान नेत्रोंसे रहित कोई राजा नहीं हुआ है ३७
 हे कमलकी समान विशाल नेत्रों वाली ! ऐसे श्लाघनीय गुणों
 वाले राजाओंके कुलोंमें तू योग्य बधु हुई है, हे शिखरके अग्र-
 भागकी समान दांत वाली ! तू उन सज्जनोंके प्रिय ईश(विष्णु)
 को प्रणाम कर ॥ ३८ ॥ हे देवि ! नारायण, अपनेसे अपने आप
 उत्पन्न हुए, त्रिलोकीके स्वामी, गरुडध्वज, अपने रवसुर पुरु-

(८२४) * महाभारत हरिवंशपर्व २ * [षण्णवतितम

यात्मभवायनाय लोकायनाय त्रिदशायनाय । स्वर्गो द्रुकेतोः पुरु-
पोत्तमाय कुरु प्रणाम इवसुराय देवि ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि प्रद्युम्न-
भाषणे पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥

वैशम्पायन उवाच । सनायसाने च मुनेः कश्यपस्यानितेजसः ।
जग्मुर्देवासुराः स्वानि स्थानान्यगितविक्रमाः ॥ १ ॥ वज्रनाभोपि
निर्वृत्ते सत्रे कश्यपगभ्यगात् त्रैलोक्यविजयार्क्षिणी तमुवाचाथ
कश्यपः ॥ २ ॥ वज्रनाभ निबोध त्वं श्रोतव्यं यदि चेन्मम । वस
वज्रपुरे पुत्र स्वजनेन सपाद्युतः ॥ ३ ॥ तपसाभ्यधिकः शक्रः
शक्रश्चैव स्वभावतः । ब्रह्माण्यश्च कृत्स्नश्च ज्येष्ठः श्रेष्ठतमोगुणैः ४
राजाकृत्स्नस्य जगतः पात्रभूतः सर्तागतिः । सम्प्राप्तो लोकराज्यं
ससर्वभूतहिते रतः ॥ ५ ॥ नव शक्यस्त्वया जेतुं वज्रनाभ विद्व-
न्यसे । अहिंपदा ऽपुत्रकपन्त्रै न चिराद्दिनशिष्यसि ॥ ६ ॥ वज्र

पोत्तमको तू प्रणाम कर ३६ पिचानवेवाँ अध्याय समाप्त ॥६५॥

वैशम्पायनजीने कहा; कि-अतितेजस्वी मुनि कश्यपके यज्ञके
समाप्त होने पर अमित पराक्रमी देवता और असुर अपने अपने
स्थानोंको चले गए ॥ १ ॥ यज्ञके समाप्त होने पर त्रिलोकीका
विजय करना चाहने वाला वज्रनाभ कश्यपके पास गया, तब
कश्यपने उससे कहा; कि-॥२॥ हे वज्रनाभ ! यदि तू मेरे कथन
को सुनने योग्य समझता हो तो तू अपने मनुष्योंसे घिर कर
वज्रपुरमें ही रहना रह ॥ ३ ॥ इन्द्र तुम्हसे तपमें अधिक है, स्व
भावसे ही समर्थ है ब्राह्मणभक्त है, कृतज्ञ है और गुणोंसे ज्येष्ठ
है ॥ ४ ॥ वह सब भूतोंका राजा, सज्जनोंकी गति है, वह पा-
रूप है, इसी लिए उस सब प्राणियोंके हिंसमें तत्पर रहने वाले
को त्रिलोकीका राज्य मिला है ॥ ५ ॥ वह तेरे जीतनेमें नहीं
आसकता; (ऐसा करनेसे) हे वज्रनाभ ! तू मारा जायेगा,

नाभश्च तद्वाच्यं नाभिनन्दति भारत । कालाशपरितांगो मर्तु-
 क्षाम इवापधम् ७ अभिवाच्य स दुर्बुद्धिः कश्यप लोकाभावनम् ।
 त्रिलोक्यविजयारम्भे गतिं वक्रे दुरासदः ॥ ८ ॥ ज्ञातिभोभान
 सपाणीय मित्राणि सुबहूनि च । मत्मध्ये स्वर्गमेवाग्रे विजिगीषन्
 विशाम्बते ॥ ९ ॥ एतस्मिन्नन्तरे देवौ, कृष्णेन्द्रौ च महाबलौ ।
 भेषपापासतुर्हसान् वज्रनाभनध गति ॥ १० ॥ सपागतास्तु
 तच्छ्रुत्वा यदुमुग्धाः महाबलाः । मन्नागिरना महात्मानभित्तपा-
 पोदेरे तथा ॥ ११ ॥ वज्रनाभोऽथ हन्तव्यः प्रद्युम्नेनेत्यसंश-
 यम् । तयोर्दुहितरो भार्या भक्त्या ताः सर्वभावनाः ॥ १२ ॥
 सर्वाः सगर्भास्ताश्चैव किं नु कायेनन्तरम् । प्राप्तः प्रसवकालश्च
 तासां नातिचिरादिव ॥ १३ ॥ सम्पन्नगिस्त्वैतदर्थं हंसानूचु-

सों पर पैर मारनेसे तू शीघ्र ही नष्ट होजावेगा ६ जैसे मरना
 चाहने वाला रोगी औपधि नहीं खाता है, इसी प्रकार कालके
 पाशमें फँसे हुए वज्रनाभने भी उनकी बात नहीं मानी ॥ ७ ॥
 तदनन्तर उस दुर्बुद्धि और दुरासद वज्रनाभने कश्यपजीको प्रणाम
 कर त्रिलोकीको विजय करने का उद्योग आरम्भ किया ॥ ८ ॥
 हे राजन् ! उसने अपनी जाति वाले गोभार्थीको और बहुतसे
 मित्रोंको बुला कर जीतनेकी इच्छासे स्वर्गको प्रस्थान करदिया ९
 इसी समय महाबली कृष्ण और इन्द्रने वज्रनाभका वध करनेके
 लिए हंसोंको भेजा ॥ १० ॥ हंसोंको आया हुआ सुनकर यादवों
 में मुख्य महाबली महात्मा आपसमें बातचीत करते हुए चिन्ता
 करने लगे, कि-॥ ११ ॥ आज प्रद्युम्नरो वज्रनाभका वध
 अवश्य करना चाहिये, परन्तु इन दोनोंकी पुत्रियें हगारी भार्याएँ
 हैं और वे सबका कल्याण चाह करती हैं ॥ १२ ॥ वे सब गर्भ-
 वती हैं और उनका प्रसवकाल समीप आलगा है, अतः अब क्या
 करना चाहिये ॥ १३ ॥ इस बातकी सलाह करके उन महाबल

गर्हावलाः । आद्यैगमर्थवत्कृस्नं शक्रकेशवयोस्तदा ॥ १४ ॥
 हंसैर्गताः तदाख्यातं देवयोस्तद्यथातथम् । ताभ्यां हंसास्तु संदिष्टा
 न भेनव्यगिति प्रभो ॥ १५ ॥ उत्पश्यन्ति गुणैः श्लाघ्याः पुत्राः
 वः कागरूपिणः । गर्भस्था सर्ववेदांश्च सांगान् वेत्स्यन्त्यनिदिताः
 तथा चानागतं सर्वमस्त्राणि विविधानि च । सद्य एव युवानश्च
 भविष्यन्ति सुपरिहताः ॥ १७ ॥ एतद्युक्त्वा गता हंसाः पुन-
 र्वज्रपुरं त्रिगो । शशंसुश्चैव भैमानां शक्रकेशवभाषणम् ॥ १८ ॥
 प्रभावती तदा पुत्रं सुपुत्रे सदृशं पितुः । सद्यो यौवनसम्प्राप्तं सवे-
 ङ्गत्वं च भारत ॥ १९ ॥ मासमात्रेण सुपुत्रे देवी चन्द्रवती वृष ।
 चन्द्रप्रभमिति ख्यातं तनयं सदृशं पितुः ॥ २० ॥ सद्यश्च यौवनं
 वरुणोने हंसोसे कहा; कि-यह सारी प्रयोजन भरी बात तुम्हें इंद्र
 और उपेन्द्रसे कहनी चाहिये ॥ १४ ॥ हंसोने जाकर यह सब बात
 उन दोनों देवताओंसे यथार्थ रीतिसे कह दी, हे प्रभो ! तब उन
 दोनोंने हंसोको संदेश दिया; कि-“तुम डरो मत ॥ १५ ॥ तुम्हारे
 इच्छानुसार रूप धारण करने वाले गुणोंसे प्रशंसा पाने वाले पुत्र
 उत्पन्न होवेंगे, और वे अनिन्दित पुत्र गर्भमें ही अज्ञोसहित वेदों
 को जान जावेंगे ॥ १६ ॥ तथा सारी भविष्यकी बातके और
 सब प्रकारके शास्त्रोंके ज्ञान होजावेंगे और वे परिहृत तत्काल
 ही तरुण होजावेंगे ॥ १७ ॥ हे प्रभो ! इस प्रकार कहने पर वे
 इस वज्रपुरकी चले गए और उन्होंने भीमवंशियोंसे कृष्णकी कही
 हुई सब बातें कहीं ॥ १८ ॥ हे भवतवंशी राजन् ! नदनन्तर प्रभा-
 वताने पुत्रको उत्पन्न किया; वह आने पितृकी समान था,
 तत्काल ही युवावस्थाको प्राप्त होगया था और सर्वज्ञ था १९
 हे राजन् ! फिर मैंने भर्मे ही देवी चन्द्रवतीने पुत्रको उत्पन्न
 किया, वह चन्द्रप्रभ नामसे मसिद्ध हुआ और पितृकी समान
 हुआ ॥ २० ॥ इसी प्रकार अनिन्दिता गुणवतीने भी गुणवान्

मासं सर्वज्ञत्वं च भारत । गुणवत्यपि पुत्रं च गुणवन्तर्निदिता २१
 युवानानथ सद्यस्ती सर्वशास्त्रार्थकोविदा । इन्द्रोपेन्द्रप्रसादेन
 संवृत्तो युद्धवर्धनी ॥ २२ ॥ हर्म्यपृष्ठे वर्धमाना दृष्टास्ते यदुनन्दनाः ।
 इन्द्रोपेन्द्रेच्छया वीर नान्गथेत्यवधार्यतः ॥ २३ ॥ निवेदिताश्च
 सम्भ्रान्तैर्देवैश्चाकाशरक्षिभिः । वज्रनाभाय वीराग त्रिविष्टप
 जयैपिणे ॥ २४ ॥ वधाय सर्वे गृह्यन्तां गमैते गृहधर्षकाः । इत्यु-
 वानामसुरपतिर्वज्रनाभो महामुरः ॥ २५ ॥ ततः सैन्यं सगाङ्गा-
 मसुरेन्द्रेण धीमता । आचारयामास दिशः सर्वाः कुक्कुलोद्ग्रह २६
 गृह्यन्तामाशु बध्यन्तागिति वाचस्ततस्ततः । उच्चैरुरसुरेन्द्रस्य
 शासनादरिशासिनः ॥ २७ ॥ यच्छ्रुत्वा व्यथितास्तेषां मातरः

नामक पुत्रको उत्पन्न किया था, वह भी तत्काल ही तरुण हो
 गया था और सर्वज्ञ था ॥ २१ ॥ वे दोनों (चन्द्रप्रभ और गुण-
 वान्) इन्द्र और उपेन्द्रके प्रसादसे तत्कालही युवा हो गए और
 सकल अस्त्रोंमें कुशल हो युद्धके बढ़ाने वाले हो गए थे ॥ २२ ॥
 (दैत्योंने) उन यदुनन्दनोंको महलकी छत पर बढ़ते हुए देख
 लिया, यह देखना इन्द्र और उपेन्द्रकी ही इच्छावश हुआ था और
 किसी प्रकार नहीं हुआ था, इस बातका निश्चय रखना चाहिये २३
 यह बात संभ्रान्त होकर आकाशकी रक्षा करने वाले दैत्योंने
 जाकर स्वर्गको जीवना चाहने वाले वीर वज्रनाभसे कहदी २४
 उस समय दैत्योंके स्वामी महादानव वज्रनाभने कहा, कि-मेरे
 घरका अपमान करने वाले इन सबको मारनेके लिए पकड़
 लो ॥ २५ ॥ हे कुक्कुलोद्ग्रह ! उस समय युद्धिमान् असुरेन्द्रकी
 आज्ञा होने पर सेनाने सब दिशाओंको घेर लिया ॥ २६ ॥ असुर-
 राजकी आज्ञा होने पर शत्रुओंका शासन करनेके लिये नियुक्त
 दैत्य पकड़लो और मार डालो आदि बातें चारों ओर कहने
 लगे ॥ २७ ॥ इस बातको सुन कर पुत्रोंमें स्नेह करने वालों

पुत्रवत्सलाः । रुरुदुस्ता रुदन्त्यश्च प्रद्युम्नः प्रहसन् व्रवीत् । २८ ।
 गा भैष्ट जीवगानेषु स्थितेष्वस्मात् सर्वथा । किं नो दैत्या करि-
 प्यन्ति सर्वथा भद्रमस्तु वः ॥ २९ ॥ प्रभावतीगथोवाच प्रद्युम्नो
 विलसां स्थिताम् । पिता तव गदापाणिः पितृव्याश्च स्थिता-
 स्तव ॥ ३० ॥ आतरश्चैव ते देव ज्ञातयश्च तथापरे । एते पूज्याश्च
 मान्गारश्च तनार्थं खलु सवथा ॥ ३१ ॥ भगिन्यां पृच्छ भद्र ते
 कालोऽयं खलु दारुणः । मरणा सहमानानां युभयतां विजयो
 ध्रुवम् ॥ ३२ ॥ दानवेन्द्रादयो ह्येते योः स्यन्तेऽस्मद्वधैरिणः । भिमत्र
 कार्यमस्माभिः सर्वैश्चक्रान्तरस्थितैः ॥ ३३ ॥ प्रभावती रुदन्ती
 तु प्रद्युम्नमिदमवधीत् । शिरस्यञ्जलिमाधाय जानुभ्यां पतिता
 न्निती ॥ ३४ ॥ घृहाण शस्त्रमात्मानं रत्न शनुनिवहेण । जीवन्
 मानाँ व्यथिन होकर रोने लगीं तब उन रोने वाली स्त्रियोसे
 प्रद्युम्नने मुँकुरा कर कहा, कि-॥ २८ ॥ हमारे जीते रहने, तब
 तुम जरा भी न डरो, दैत्य हमारा क्या कर सकते हैं ? तुम्हारा
 सब प्रकार कल्याण ही होगा ॥ २९ ॥ उस समय (चिन्तामें)
 हूँती हुई प्रभावतीसे प्रद्युम्नने कहा, कि-तुम्हारे चाचा और
 तुम्हारे पिता हाथमें गदा लिए हुए खड़े हैं ॥ ३० ॥ हे देवि !
 तुम्हारे भाई और दूसरे जाति वाले भी (खड़े हैं) वे सर्वथा
 तुम्हारे माननीय और पूज्य हैं ॥ ३१ ॥ हे भद्रे ! तुम अपनी
 अङ्गिणोंसे भी सब बातें पूछलो, क्योंकि-यह समय बड़ा दारुण
 है, क्योंकि-(शस्त्रोंका गहार) सहन कर लड़ने वाले पुरुषोंकी
 जीत वा मृत्यु अवश्य ही होती है ॥ ३२ ॥ ये दानवेन्द्र आदि
 युद्ध करेगे और ये हमारा बध करना चाहने हैं, परन्तु हम सब
 दूतोंके राजा में पड़े हुए हैं, अतः अब क्या करें ? ॥ ३३ ॥
 उस समय प्रभावती रोनेलगी और उसने शिर झुका हाथ जोड़
 पृथितीमें घुटनोंको टेक कर प्रद्युम्नसे यह बात कही, कि-३४

पुत्राश्च दाराश्च द्रष्टासि यदुजन्दन ॥३५॥ शार्या वृत्त चोद्भी-
 गानिरुद्धं च मानद । स्मृत्वीतन्मोक्षयात्यानं व्यसनादग्निमर्दन ३६
 दुर्वाससा वरो दत्तो मुनिना मम धीमता । नैनव्यरहिता हृष्टा
 जीवत्पुत्रा भविष्यासि ॥ ३७ ॥ एष मे हृदगाश्वासा भावता न
 तदन्गथा । सूर्पाग्नितेजरो यावयं मुनेरिन्द्रानुजात्मज ॥ ३८ ॥
 इत्युक्त्वाथासिमादाय सूपस्पृष्ट्वा मनस्विनी । प्रददौ रौक्मणोगाय
 जयस्वेति वरम्बरो ॥ ३९ ॥ स तं जग्राह धर्मात्मा महृष्टेनान्वरा-
 त्माना । प्रणम्य शिरसा दत्तं प्रियया भक्तियुक्तया ॥ ४० ॥
 चन्द्रस्त्यपि निस्त्रिशं गदाय प्रददौ सुंदा । तदा गुणवती चैव
 साम्बागतिं महात्मने ॥ ४१ ॥ इंसकेतुपयोना न प्रद्युम्नः प्रणतं
 हे शत्रुनिवर्हण ! आप शस्त्रकों ग्रहण कर अपनी रक्षा करिये,
 हे यदुजन्दन ! यदि आप जीवित रहेंगे तो (बहुतसे) पुत्र और
 स्त्रियोंको देव सकेंगे ॥ ३५ ॥ हे गनुष्यश्रेष्ठ अग्निमर्दन ! आप
 पूज्या वैदर्भीका और अनिरुद्धका स्मरण कर इस आपत्तिसे
 अपना आपा छुड़ानेका यत्न करिये ॥ ३६ ॥ बुद्धिमान् दुर्वास
 मुनिने मुझे वर दिया था, कि-तू वैधव्यरहित होगी, तेरे पुत्र
 जीवित रहेंगे, और तू गसन्न रहेगी ॥३७॥ हे इन्द्रके छोटे भाई
 के पुत्र ! मेरे मनमें विश्वास है, कि सूर्य और अग्निकी समान
 तेजस्वी मुनिकी यह वान सत्य होगी; भूँड नहीं होगी ॥ ३८ ॥
 इस प्रकार कहनेके अनन्तर वरका वरण करनेवाली मनस्विनी
 प्रभावतीने तलवारको पकड़ा और उसका भली प्रकार स्पर्श
 कर वह तलवार जीता कहकर प्रद्युम्नको देदी ॥३९॥ धर्मात्मा
 प्रद्युम्नने शिर झुका कर प्रणाम कर देती हुई अपनी प्रियासे
 यह तलवार मनमें प्रसन्न होकर लेली ॥४०॥ तदनन्तर चन्द्र
 वतीने भी प्रसन्न होकर गदको तलवार दी और गुणवतीने भी
 महात्मा साम्बको तलवार दी ॥४१॥ उस समय प्रणाम करते

प्रभुः । इहैव सार्वसहितो युध्वस्व सह यादवीः ॥४२॥ आकाशे
 दिक्षु सर्वासु यांस्याम्यहमरिंदम । इत्युक्त्वाथ रथं चक्रे गागया
 गाग्निनाम्बरः ॥ ४३ ॥ सहस्रशिरसं नागं कृत्वा सारथिमात्म-
 वान् । अनन्तभोगं कौरव्य सर्वनागोत्तमोत्तमम् ॥ ४४ ॥ स तेन
 रथमुष्येन हर्षयन् वी प्रभावतीम् । चचारासुरसैन्येषु सृणोष्विव
 हुनाशनः ॥ ४५ ॥ शरैराशीविषाख्यैरर्धचन्द्रानुकान्तिभिः । भेद-
 नैर्गाधनैश्चैव ततर्द दितिसम्भवान् ॥ ४६ ॥ असुराश्च रणे
 मत्ताः कार्ष्णिण शस्त्रैरितस्ततः । जघ्नुः कमलपत्राक्ष परं निश्चय-
 मास्थिताः ॥ ४७ ॥ चिच्छेद बाहून्केर्पांचित् संयूरवत्तपोज्ज्व-
 लान् । सकुण्डलानि केर्पांचिच्छिरांस्यपि च चिच्छिदे ॥ ४८ ॥

हुए हंसकेतुसे प्रभु प्रद्युम्नने कहा, कि-तुम यादवोंको और साम्ब
 का साथमें लेकर यहाँ ही युद्ध करो ॥ ४२ ॥ और हे अरि-
 दमन ! मैं आकाशमें और सब दिशाओंमें युद्ध कर लूँगा, इस
 प्रकार कहकर माया करने वालोंमें श्रेष्ठ प्रद्युम्नने मायासे रथको
 बना लिया ॥ ४३ ॥ हे कौरव्य ! आत्मवान् प्रद्युम्नने सहस्र
 फनों वाले सर्पको रचकर उस अनन्तके शरीरधारी सर्पको अपना
 सारथि बना लिया ॥४४॥ वह उस मुख्य रथसे प्रभावतीको
 हर्षित करता हुआ असुरसेनाके बीचमें, तिनुकोंमें विचरण करने
 वाले अग्निकी समान, असुर सेनाओंमें घूमने लगा ॥ ४५ ॥
 तदनन्तर प्रद्युम्नने आधे चन्द्रमाकी समान कान्ति वाले सर्पकी
 समान सूक्ष्म अग्रभाग वाले और शरीरमें घुस जाने वाले वाणों
 से असुरोंको पीड़ित करना आरम्भ कर दिया ॥४६॥रणमें मत्त
 हुए असुर भी बड़ा पक्का निश्चय कर कमलपत्रकी समान नेत्रोंवाले
 कृष्णपुत्र पर चारों ओरसे वाणोंकी वर्षा करने लगे । ४७ ।
 तब प्रद्युम्नने बहुगसे पुरुषोंकी बाजूबन्द और बलोंमें विभूषित
 भुजाओंके काट डाला और किन्हींके कुण्डलयुक्त मस्तकोंको

क्षुरच्छिन्नैः शिरोभिश्च कायैश्च शकलैरपि । असुराणां मही
 कीर्णा मधुम्नेनातितेजसा ॥ ४६ ॥ देवेश्वरो देवगणैः सहितः
 समितिजयः । ददर्श मुदितो युद्धं भैमानां दितिजैः सह ॥ ५० ॥
 ये गदं चैव साम्बं च दैत्याः समभिदुद्रुवुः । ते ययुर्निधनं सर्वं
 यादांसीव महोदधी ॥ ५१ ॥ विपमं तु तदा युद्धं दृष्ट्वा देवपति-
 हरिः । गदाय प्रेषयामास स्वं रथं हरिवाहनः ॥ ५२ ॥ दिदेश
 मातलिमुतं यन्तारं च सुवर्चसम् । साम्बायैरावणं नागं प्रेषया-
 यास चेश्वरः ॥ ५३ ॥ जयन्तं रुक्मिण्येगस्य सहायगददद्विभुः ।
 ऐरावणमधिष्ठातुं मवरं स नियुक्तवान् ॥ ५४ ॥ देवपुत्राद्विजौ
 वीरावपमेयपराक्रमौ । अनुज्ञाप्य सुराध्यक्षं ब्रह्माणं लोकभावन-
 नम् ॥ ५५ ॥ तं मातलिमुतं चैव गजमैरावणं तदा । देवः प्रेषित-
 व्हेद डाल्ता ॥ ४८ ॥ अति तेजस्वी प्रद्युम्नने क्षुरोसे काटे हुण्ड
 शिरोसे और उनके शरीरके टुकड़ोंसे पृथिवीका व्याप्त कर दिया
 उस समय देवता और समितिजय इन्द्र भी भीमवंशियोंके और
 रान्तसोंके युद्धको मसन्ने होकर देखने लगे ॥ ५० ॥ जो दैत्य
 गद और साम्ब पर झगड़ कर गए थे, वे समुद्रमें लीन होने
 वाले जलचर पक्षियोंका समान मर गए ॥ ५१ ॥ देवताओंके
 स्वामी हरिवाहन इन्द्रने उस विपग युद्धको देख कर अपना रथ
 गदके लिये भेज दिया ॥ ५२ ॥ और मातलिके पुत्र सुवर्चाको
 रथवान् बनाकर भेज दिया इसीप्रकार साम्बके लिए भी ईश्वर
 इन्द्रने ऐरावत हाथीको भेज दिया ॥ ५३ ॥ फिर विभु इन्द्रने
 रुक्मिणीपुत्रकी सहायता करनेके लिए जयन्तको (भेज) दिया
 और उसने ऐरावत हाथी (में हाथीवान्के स्थान, पर अधिष्ठित
 होनेके लिए मवरको नियुक्त कर दिया ॥ ५४ ॥ देवताओंके
 अध्यक्ष लोकपूजित ब्रह्माजीसे आज्ञा लेकर अममेय पराक्रमी वे
 दोनों वीर देवपुत्र और ब्राह्मण (चल दिए) ॥ ५५ ॥ श्रेष्ठ

वाञ्छको विधिज्ञो वरकर्मसु ॥५६॥ क्षीणमस्य तपो वध्यो यदू-
नामेष दुर्मतिः । प्रदिशान्त तु भूतानि सर्वत्र तु तथोप्सतम् ॥५७॥
प्रद्युम्नश्च जयन्तश्च प्राप्नो हर्म्य महाबली । असुराश्च्युतास्तु यै-
र्विक्राम्यन्तो मण्डलतुः ॥ ५८ ॥ गदं कार्पिणस्तदीवाच दुर्वीर्यो
रणदुर्जयः । उपेन्द्रानुज शक्रेण रथोयं प्रोपतस्त्व ॥ ५९ ॥ हार-
युद्धपातलिमुतो यन्ता चायं महाबलः । मवराध्रिष्ठितश्चायं साय-
स्येरावणो गजः । ६० ॥ अथोपहारो रुद्रस्य द्वारकायं महा-
बलः । श्व पृथति हृषीकेशस्मिन्टप्तेऽयुतानुज ॥६१॥ तस्या-
ज्ञया त्रिष्यामो वज्रनाभ सवान्धवम् । अभ्युत्थानकृतं पापं
त्रि वष्टपजयं मति ॥६२॥ करिष्यामि विधानं च नैप शकं सुता-

कर्ममें विभिन्नो जाननेवाले देवराज इन्द्रने मातलिके पुत्रको और
ऐरावत, हाथीको (यह यह कर) भेजा था कि—॥५६॥ “अब
इस दुर्मतिके तप क्षीण होगया अब यह यादवोंके हाथसे मारा
जावेगा अब (इसके नगरमें) सब प्राणी इच्छानुसार घुसे चले
जारहे है, ॥ ५७ ॥ उस समय महाबली प्रद्युम्न और जयन्त
महत्त्व पर पहुँच वाणोंसे असुरोंके व्यापराक्रमपूर्वक उनका नाश
करने लगे ॥ ५८ ॥ उस समय रणमें दुर्जय दुर्वीर्य प्रद्युम्नने
गदसे कहा, कि—हे कृष्णके अनुज ! इन्द्रने आपके लिए यह रथ
भेजा है ॥ ५९ ॥ इसमें घोड़े जुत रहे हैं, और यह महाबली
मातलिका पुत्र इसका मारथि है और जिस पर प्रवर बैठा हुआ
है, यह ऐरावत हाथी सन्धके लिए है ॥६०॥ हे अयुतके
अनुज ! आज द्वारकामें रुद्रकी महापूजा होगी, उसके पूर्ण होने
पर महाबली हृषीकेश कल यहाँ आधेंगे ॥६१॥ उनकी आज्ञासे
हम स्वर्गके गीतनेरा उद्योग करनेवाले वान्यनोंसहित इस पापी
वज्रनाभके मार डालेंगे ६२ और मैं ऐसी युक्ति करूँगा, जिससे
यह पुनसहित इन्द्रके न जीत सके, परन्तु मेरा विचार है,

न्वितम् । विजेष्यत्यपमादस्तु कर्तव्य इति मे ततिः । ६३ । कलत्र-
रक्षणं कार्यं सर्वोपायैर्नैर्वुधैः । कलत्रभर्षणं लोके मरणादति-
रिच्यते ६४ एवं सन्दिश्य भैषः स गदसांश्च महाबलः । प्रद्युम्न-
कोटयः संसृजे मायया दिव्यरूपगा ६५ तगश्च नाशयामास दैत्य-
सृष्टं दुरासदम् । जहृणे देवराजश्च तं हृष्टा रिपुमर्दनम् ॥ ६६ ॥
ददृशुः सर्वभूतानि कार्ष्णिं सर्वेषु शत्रुषु । अन्तरात्मनिवर्तन्तं
क्षेत्रज्ञमिव तं विदुः ॥ ६७ ॥ एवं ज्यतीना रजनी रौक्मिण्यस्य
युध्यतः । अमुराणां त्रिगणश्च निहतश्चानितेजसा ॥ ६८ ॥ याव-
द्विषोपयामास कार्ष्णिर्दैतान् रणाजिरे । सन्ध्यापास्ता जयन्तेन
तावद्विष्णुपदीजले ॥ ६९ ॥ अपोपयज्जयन्तश्च यावदेत्यान्
महाबलः । तावदाकाशगंगायां भैषः सन्ध्यामुपास्तवान् ॥ ७० ॥

कि-इस समय प्रगाढ़ नही करना चाहिये ॥ ६२ ॥ विद्वान् पुरुषों
को सब उपायोंसे स्त्रियोंकी रक्षा करनी चाहिये, संसारमें स्त्रियों
का तिरस्कार होना गरणसे भी अधिक माना जाता है । ६४ ।
भीमवंशी महाबली प्रद्युम्नने गद और साम्बको इस प्रकार
संदेशा देकर अपनी दिव्य मायासे करोड़ों प्रद्युम्न बना डाले ६५
और दैत्योंके रचे हुए दुरासद अन्धकारका भी नाश कर डाला
तब रिपुमर्दन प्रद्युम्नको देख कर देवराज प्रसन्न होने लगे ६६
सब प्राणी प्रद्युम्नको सब शत्रुओंमें (घूमता हुआ) देखनेलगे
तब उन्होंने उसको अन्तरात्मामें वर्तमान क्षेत्रज्ञ समझा ॥ ६७ ॥
रुक्मिणीनन्दनको इस प्रकार युद्ध करते २ रात बीत गई (अब
तक) अतितेजस्वी प्रद्युम्नने अमुरोंके तीन हिस्से मार डाले थे
जब तक ऋष्यपुत्र रणागणमें दैत्योंको लड़ाते रहे, तब तक
जयन्तने विष्णुपदी (गङ्गा) के जलमें संध्या करली ६८ ६९
फिर जब तक भीमवंशीने गङ्गाजीके जलमें सन्ध्या की तब तक
महाबली जयन्त भी योधाओंसे युद्ध करता रहा ७० द्वियानवेवाँ

वैशम्पायन उवाच । जगत्श्चक्षुषि ततो मुहूर्त्ताभ्युदिते रथो ।
 प्रादुरासीद्भरिर्देवस्तादर्षेणोरगशत्रुणा ॥१॥ हंसवायुमनोभिश्च
 सुशीघ्र तरगः खगः । तस्मै विषति शक्रस्य सपीपे कुरुनन्दन २
 समेत्य च यथान्यागं कृण्वो वासवसन्निधौ । पाञ्चजेन्यं हरि-
 र्दध्मौ दैत्यानां भयनर्धनम् ॥ ३ ॥ तं श्रुत्वाभ्यागतस्तत्र प्रद्युम्नः
 परवीरहा । वज्रनाभं जहीत्युक्तः केशवेन त्वरेति चा॥४॥ तार्क्ष्य-
 मारुह्य गच्छेति पुनरेव प्रणोदितः । चकार स तथा वीरः प्रणि-
 पत्य सुरोत्तमौ ॥५॥ स मनोरंहसा वीर तार्क्ष्येणाशु ययौ नृप ।
 अभ्यासं वज्रनाभस्य गहाद्वंद्वस्य भारत ॥ ६ ॥ ततस्तार्क्ष्यगतो
 वीरस्ततर्दरणमूर्धनि । वज्रनाभं स्थिरो भूत्वा सर्वास्त्रविदिनि-
 न्दितः ॥ ७ ॥ तेन तार्क्ष्यगतेनैव गदया कृष्णमूनुना । उरस्य-

वैशम्पायनजीने कहा, कि-मुहूर्त भरमें जगत्के नेत्र सूर्यके उदय होने पर हरि सर्पोंके शत्रु गरुड़ पर बैठ कर प्रकट होगए ? हे कुरुनन्दन ! हंस वायु और मनसे भी शीघ्र चलने वाले गरुड़ आकाशमें इन्द्रके पास जाकर खड़े होगए ॥ २ ॥ कृष्णने इन्द्रके पास पहुँच उनसे उचितरीतिसे गिल दैत्योंके भयको बढ़ाने वाले पाञ्चजन्य नामक शङ्खको बजाया ॥३॥ शंखके शब्दको सुन कर शत्रुओंके वीरोंका नाश करने वाला प्रद्युम्न तहाँ आगया, उस सगग केशवने उससे कहा; कि-तुम वज्रनाभको फुर्तीसे मारो ४ फिर उससे कहा, कि-तुम गरुड़ पर चढ़ कर तहाँ जाओ, तब उस वीरने उन दोनों देवोत्तमोंको प्रणाम कर तैसा ही किया ५ हे वीर भरतवंशी रागन् ! वह मन और वायुकी समान वेगवाले गरुड़ पर सवार हो घोर युद्ध गचाने वाले वज्रनाभके पास शीघ्रतासे चला ॥ ६ ॥ तदनन्तर गरुड़ पर सवार सब प्रकारके अस्त्रोंमें कुशल अनिन्दित वीर प्रद्युम्न रणके मुहाने पर स्थित होकर वज्रनाभको पीड़ित करने लगा ॥७॥ गरुड़ पर बैठे हुए

भवाहतो वीरो वज्रनाभो महात्मना ॥८॥ स तेनाभिहतो वीरो
 दैत्यो गोहवशं गतः । चत्वार च भृशं रक्तं चभूमैव गताद्यवत् ६
 आश्वसेत्यथ तं काष्णिरुवाच रणदुर्जयः । लब्धसंज्ञः स वीरस्तु
 मद्युम्नमिदमब्रवीत् ॥ १० ॥ साधु यादव वीर्येण श्लाघ्यो मग
 रिर्धुर्भवान् । प्रतिगहारकालोऽयं स्थिरो भव महाबल ॥ ११ ॥
 एवमुक्त्वा महानादं मुक्त्वा मेघशतोपमम् । गदां मुगोच वेगेन स
 यंटां बहुरुण्टकाम् ॥ १२ ॥ तथा ललाटेऽभिहितः मद्युम्नो गदया
 नृप । उद्गमन् रुधिरं भूरि मुगोह यदुगन्दनः ॥ १३ ॥ तं दृष्ट्वा
 भगवान् कृष्णः पाञ्चजन्यं जलोद्भवम् । दम्भावाशवासनकरं
 पुत्रस्य रिपुनाशनः ॥ १४ ॥ तं पाञ्चजन्यशब्देन अश्वस्तं
 कृष्णके पुत्र महात्मा मद्युम्नने (गरुडपरसे) ही वीर वज्रनाभ
 की छातीमें गदासे प्रहार किया ॥ ८ ॥ वह वीर दैत्य गदासे
 गिटने पर मूर्च्छित होगया और मेरे हुए की समान मुखमेंसे बहुत
 सा खून ओरुने लगा और चकराने लगा ॥ ९ ॥ उस समय रण-
 दुर्जय मद्युम्नने उससे कहा; कि-तू विश्राम लेले, उस वीरने साव-
 धान होकर मद्युम्नसे यह कहा, कि-॥ १० ॥ हे यादव ! (आप
 अपने) वीर्यके कारण साधु (धन्यवादके पात्र) है, आप मेरे
 प्रशंसनीय शत्रु हैं, परन्तु हे महाबल ! आ यह बदलेमें प्रहार
 करनेका समय है, अतः आप स्थिर होजाइये ॥ ११ ॥ इस प्रकार
 कहनेके अनन्तर वज्रनाभने सैंकड़ों मेघोंकी समान महानाद कर
 के अनेक घण्टियों वाली और (लोहेके) काँटों वाली गदा वेग
 से मारी ॥ १२ ॥ हे राजन् ! उस गदाके शिरमें लगनेसे यदु-
 नन्दन मद्युम्न मुखमेंसे बहुतसा रक्त ओरुते हुए मूर्च्छित होने
 लगे ॥ १३ ॥ उसको देख कर शत्रुनाशक भगवान् कृष्णने पुत्र
 को आशवासन देनेके लिये जज्ञमेंसे उत्पन्न हुए पाञ्चजन्य नामक
 शंखको बजाया ॥ १४ ॥ उस महाबलीको पाञ्चजन्यके शब्दसे

महाबलम् । दृष्ट्वा प्रमुदिता लोका विशेषेणोन्द्रवेशवौ ॥ १५ ॥
 तस्य चक्रं करे यारं कृष्णच्छन्देन भारत । क्षुरनेगिसहस्रारं
 दैत्यसंघकुलान्तकम् ॥ १६ ॥ तन्मुभोचाच्युतसुतस्तस्य नाशाय
 भारत । नमस्कृत्वा सुरेन्द्राय कृष्णाय च महात्मने ॥ १७ ॥
 वज्रनाभस्य तत्कायादुच्चकर्तृशिरस्तदा । नारायणसुतोन्मुक्तंदैत्या-
 नामनुपश्यताम् ॥ १८ ॥ गदः सुनाभगवधीद्यतमानं रणाजिरे ।
 हर्म्यपृष्ठे जिघांसन्तं रणदृष्टं भयानकम् ॥ १९ ॥ साम्बः समर-
 मध्यस्थानसुरानरिमर्दनः । निनाय निशितैर्वाणैः प्रेताधिपपरि-
 ग्रहम् ॥ २० ॥ निकुम्भोऽपि हते वीरे वज्रनाभे महासुरे । जगाम
 पट्पुरं वीरो नारायणभयादितः ॥ २१ ॥ निवर्हिते देवरिपौ वज्र-
 नाभे महासुरे । अवतीर्णौ महात्मानौ हरी वज्रपुरं तदा ॥ २२ ॥

आश्वस्त हुआ देख कर गनुष्य प्रसन्न होने लगे और केशव
 और इन्द्र तो विशेष प्रसन्न होने लगे ॥ १५ ॥ हे भारत ! उस
 समय कृष्णकी इच्छासे दैत्योंके संघका अन्त करनेवाला क्षुर और
 नेगिकी सहस्रों आर वाला (सुदर्शन) चक्र प्रद्युम्नके हाथमें पहुँच
 गया ॥ १६ ॥ हे भरतवंशी राजन् ! तब अच्युत कृष्णके पुत्रने
 देवताओंके स्वामी महात्मा केशवको प्रणाम कर असुरका नाश
 करनेके लिये उस चक्रको फेंका ॥ १७ ॥ नारायणके पुत्रके फेंके
 हुए चक्रने दैत्योंके सामने ही वज्रनाभके शिरको शरीरसे अलग
 कर दिया ॥ १८ ॥ इसी समय गदने भी महलकी छतपर अपने
 को मारना चाहने वाली रणमें उद्धत और रणांगणमें चेष्टा करते
 हुए भयानक सुनाभको मार डाला ॥ १९ ॥ अरिमर्दन साम्ब
 भी रणके बीचमें खड़े हुए असुरोंको तेजवाणोंसे प्रेतोंके स्वामी
 के कुटुम्बमेंको भेगने लगा ॥ २० ॥ महादैत्य वीरवर वज्रनाभ
 के मारे जाने पर वीर निकुम्भ नारायणके भयसे पीड़ित होकर
 पट्पुरको चला गया ॥ २१ ॥ देवताओंके शत्रु महाराजस वज्र-

लब्धमशमनं चैव चक्रतुः सुरसत्तमौ । सांत्वयामोसतुरचैव बाल-
 वृद्धं भगार्दितम् ॥ २३ ॥ इन्द्रोपेन्द्रौ महात्मानौ मन्त्रयित्वा महा-
 बलौ । आगत्यां च तदात्वे च बृहस्पतिमत्तानुगौ ॥ २४ ॥ वज्र-
 नाभस्य तद्राज्यं चतुर्धा चक्रतुर्वृष । विजगस्य चतुर्भागं जयन्त-
 तनयस्य वी ॥ २५ ॥ प्रद्युम्नस्य चतुर्भागं रौक्मिणोपसुतस्य च ।
 चन्द्रमभस्य ददतुरचतुर्भागं जनेश्वर ॥ २६ ॥ फोटयश्चतस्रो
 ग्रापाणामधिकास्ता विशाम्पते । शाखापुरसहस्रञ्च च स्फूर्तिं
 वज्रपुरीषम् । चतुर्धा चक्रतुस्तत्र संहृष्टौ शक्रकेशवौ ॥ २७ ॥
 कंबलाजिनवासांसि रत्नानि विविधानि च । चतुर्धा चक्रतुर्वीरौ
 वीर वासवकेशवौ ॥ २८ ॥ ततोभित्काम्पे वीरा राजानो वास-

नाभके मारे जानेपर महात्मा दोनों हरि वज्रनाभपुरमें उतर आए
 (हरि इन्द्रको भी कहते हैं और विष्णुको भी कहते हैं) ॥२२॥
 उस समय देवताओंमें श्रेष्ठ (इन्द्र और उपेन्द्र शत्रुके पराजयसे)
 प्राप्तहुए (दुःखको) शान्त करने लगे और भयभीत हुए बालक
 तथा वृद्धोंको ढाढस देने लगे २३ महाबली महात्मा इन्द्र और
 उपेन्द्रने मन्त्रणा करनेके अनन्तर भविष्यकालके लिए और वर्त-
 मानके लिए बृहस्पतिके मतका अनुसरण किया २४ हे राजन् !
 उन्होंने वज्रनाभके राज्यको चार भागोंमें बाँट दिया, चौथा भाग
 जयन्तके लड़के विजगको देदिया २५ चौथाई भाग प्रद्युम्न (के
 पुत्र) को देदिया और रुक्मिणीके पुत्र साविके पुत्रकोभी चौथाई
 भाग दिया और हे जनेश्वर ! (गदके पुत्र) चन्द्रमभको भी
 चौथाई भाग दिया ॥२६॥ हे राजन् ! ये चार करोड़ ग्राम थे,
 सहस्र शाखापुर थे ये सब वज्रपुरकी सगण विस्तृत थे इस सब
 को केशवने और इन्द्रने प्रसन्न होकर चार भागोंमें बाँट दिया २७
 हे वीर ! वीर वासव (इन्द्र) और केशवने कम्बल, चर्म, वस्त्र
 और नाग प्रकारके रत्नोंको भी चार भागोंमें बाँट लिया २८

वाङ्मया । देवदुन्दुभिवाद्येन नृप विष्णुपदीजलैः ॥ २६ ॥ स्वयं
शक्रेण देवेन केशवेन च धीमता । ऋषिवंशे महात्मानः शक्र-
माधवनन्दनाः ॥ ३० ॥ विजयस्य मसिद्धैव गतिर्विद्यति धीमतः ।
मातृजेन गुणेनापि माधवानां महात्मनाम् ॥ ३१ ॥ अभिषिच्य
जयन्तान्तु वासवो भगवन् ब्रवीत् । त्वयैते वीर संरक्ष्या राजानः
समितिक्षयाः ॥ ३२ ॥ गम वंशकरोऽत्रैकः केशवस्य त्रयोऽनघ ।
अवध्याः सर्वभूतानां भविष्यन्ति गणाङ्गया ॥ ३३ ॥ गमनागमनं
चैव दिवि सिद्धं भविष्यति । त्रिविष्टपं द्वारकां च रम्पां भैमा-
भिरक्षिताम् ॥ ३४ ॥ दिशागजसुतान् नागान् हर्षारचोच्चैःश्रवो-
न्वयान् । इच्छयैषां प्रयच्छध्व रथांस्त्वष्टृकृतानपि ॥ ३५ ॥ गजा-

हे राजन् ! तदनन्तरं उन वीर राजाओंका इन्द्रकी आज्ञासे
देवताओंकी दुन्दुभिषोंको बन्ना कर गङ्गाके जलसे अभिषेक
किया गया २६ ऋषियोंके संघके समीप इन्द्र और माधवको
आनन्दित करने वाले (पुत्रों) का बुद्धिवान् इन्द्रने और केशव
ने आने आप अभिषेक किया था ॥ ३० ॥ बुद्धिमान् विजयकी
आकाशगति तो स्वभावसे ही सिद्ध थी और महात्मा माधवों
की आकाशगति भी (राजाओंके धेवते होने कारण) सिद्ध ही
थी, (अर्थात् ये चारों आकाशमें उड़ सकते थे) ३१ हे भगवन् !
अभिषेक करनेके अनन्तर इन्द्रने जयन्तसे कहा, कि-हे वीर ! तुम
इन समितिक्षया राजाओंकी रक्षा करते रहना हे निष्ठाप ! मेरे
वंशको चलानेवाला एक, और तीनों केशवके वंशको चलानेवाले
मेरी आज्ञासे ये सब प्राणियोंसे अवध्य होजायेंगे ३३ ये स्वर्गमें
आजासकेंगे और ये भीमवंशिषोंसे रक्षित रमणीय द्वारकापुरीमें
भी आजासकेंगे ३४ तुम अपनी इच्छानुसार इन्हें दिग्गजोंके
पुत्र हस्ती और उच्चैःश्रवाके वंशके घोड़े और त्वष्टाके बनाए हुए
रथ दो ३५ गद् और साम्बको ऐरावत हाथीके पुत्र शक्र-

वैरावणसुतौ शत्रुञ्जयरिपुञ्जगौ । मयञ्छाकाशगौ वीरौ सांवरप
 च गदस्य च ॥ ३६ ॥ आकाशेन पुरीं यातु द्वारका भैमरक्षि-
 ताम् । आपातौ च सुतौ द्रष्टुं यथेष्टं भैमनन्दनौ ३७ इति संदिश्य
 भगवान् देवराजः पुरन्दरः । जगाम भगवान् स्वर्गं द्वारकामणि
 केशवः ॥ ३८ ॥ पयसासानुपितस्तत्र गदः मधुमन् एव च ।
 साम्बरश्च द्वारकां याता रुद्धे राज्ये महाबलाः ॥ ३९ ॥ अथापि
 तानि राज्यानि मेरोः पार्वे तथोत्तरे । तिष्ठन्ति च जगद्यावत्स्था-
 स्यंत्यमरसन्निभ ४० निवृत्ते मौशलौ युद्धे स्वर्गं यातेषु वृष्णिषु ।
 गदमधुमन्साम्बाहते गता वज्रपुरं विभो ४१ ततः प्रोष्य पुनर्याति
 स्वर्गं स्वैः कर्मभिः शुभैः । प्रसादेन च कृष्णस्य लोककर्तु-
 र्जनेश्वर ॥ ४२ ॥ मधुमनोत्तरमेतत्ते नृदेव कथितं गया ।
 धन्यं यशस्यगायुष्यं शत्रुनाशनमेव च ॥ ४३ ॥ पुत्रपौत्रा विवर्धन्ते

ञ्जय और रिपुञ्जय नामक आकाशचारी हाथी देवो ३६ जिससे
 ये भैमनन्दन आकाशही द्वारभापुरीवे जावे और अपने पुत्रोंके
 द्वारकासे देखनेके लिए इच्छानुसार आत्मके ३७ देवराज भगवान्
 पुरन्दर इस प्रकार सन्देश देकर स्वर्गमें चले गए और केशव
 भी द्वारकाको चले गए ३८ गद और मधुमन् तहाँ छः महीने
 तक रहे और साम्ब भी राज्यके दृढ़ होने पर द्वारकामें चले
 गए ३९ हे देवराज ! वे राज्य मेरुके उत्तरप्रदेशमें आग कल
 भी तिसी प्रकार स्थित है, और जब तक जगत् रहेगा ऐसे ही
 रहेंगे ४० मौशल युद्ध होने पर जब वृष्णिवंशी स्वर्गमें चले गए
 हे विभो ! तब गद मधुमन् और साम्ब द्वारकापुरीको चले गए
 हे जनेश्वर ! वे लोककर्ता कृष्णके प्रसादसे तहाँ रह कर अपने
 शुभ कर्मोंसे स्वर्गमें चले जाया करते थे ४२ हे नरदेव ! मैंने
 तुमसे यह मधुमन्का उत्कर्ष कहा, ये धन देने वाला, आयु देने
 वाला और शत्रुओंका नाश करने वाला है ४३ द्वैपायनके वच-

आरोग्यधनसम्पदः । यशो विपुलमाप्नोति द्वैपायनवचो यथा४४
-इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वाणि वज्रनाभवधो
त्राय सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥

वैशम्पायन उवाच । ददर्शाय पुरीं, कृष्णो द्वारकां गरुडे
स्थितः । देवसञ्जयतीकाशां सम्मतात् पतिनादिताम् । १ । मणि-
पर्वतयन्त्राणि तथा क्रीडागृहाणि च । उद्यानवनमुख्यानि बलभी-
चत्वराणि च ॥ २ ॥ सम्प्राप्ते तु तदा कृष्णे पुरीं देवकीनन्दने ।
विश्वकर्माणमाहूय देवराजोऽब्रवीदिदम् ३ प्रियमिच्छसि चेरक्तुं
मह्यं, शिल्पमतां वर । कृष्णप्रियार्थं भूयस्त्वं प्रकुरुष्व मनो-
हराम् ॥ ४ ॥ उद्यानशतसम्वाद्यां द्वारकां स्वर्गसम्मिताम् ।
कुरुष्व विद्युत्श्रेष्ठ यया मम पुरी तथा ॥ ५ ॥ यत्कि-
चित्, त्रिषु लोकेषु रत्नभूतं प्रपश्यसि । तेन संयुज्यतां त्रिप्रं
पुरी द्वारवती त्वया ॥ ६ ॥ कृष्णो हि सुरकार्येषु सर्वेषु सततो-

गानुसार पुत्र पौत्र आरोग्य और धनसंपत्ति बढ़ती है और वह
पुरुष विपुल यशको पाता है । ४४ । सत्तानवेनाँ अध्याय समाप्त
वैशम्पायनजीने कहा, कि तदनन्तर गरुड़ पर बैठे हुए
श्रीकृष्णने चारों ओरसे गुञ्जारती हुई देवभवनकी समान
द्वारकापुरीको देखा १ मणिपर्वतोंके यन्त्र क्रीडागृह और मुख्य
मुख्य उद्यान और बलभी (गोपालोंके भवन) के आँगनोंको
भी (देखा) २ देवकीनन्दन कृष्णके द्वारका पुरीमें पहुँचने पर
देवराजने विश्वकर्माको बुला कर यह कहा, कि- ३ हे शिल्पियों
में श्रेष्ठ ! यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो कृष्णका प्रिय
करनेके लिये द्वारकाको फिर मनोहर बनाओ ४ हे देवश्रेष्ठ !
तुम स्वर्गकी समान द्वारकाको सैकड़ों बगीचोंसे छाकर मेरी पुरी
की समान बनाओ ५ तुमने तीनों लोकोंमें जिन रत्नोंको देखा
है उन सबसे तुम द्वारवती पुरीको शीघ्र ही भर दो ६ देवताओं

स्थितः । संग्रामान् घोररुगांश्च विगाहति महाबलः । तामिन्द्रवच-
नादत्वा विश्वकर्मा पुरीं ततः ७ अलं वक्तुं समन्ताद् वै यथेन्द्र-
स्यामरावती । तां ददर्श दशार्हाणामीश्वरः पत्निवाहनः । विश्व-
कर्मकूर्तैर्दिव्यैरभिप्रायैरलंकृताम् ॥८॥ तां तदा द्वारकां दृष्ट्वा मधु-
नारायणो विभुः । हृष्टः सर्वार्थसम्पन्नः प्रवेष्टुमुपचक्रमे ॥ ९ ॥
सोऽपश्यद् वृक्षखण्डांश्च रम्यान् दृष्टिमनोहरान् । द्वारकां प्रति
दाशार्हश्चित्रितान् विश्वकर्मणा ॥ १० ॥ पद्मखण्डाकुलाभिश्च
हंससेवितवारिभिः । गंगासिन्धुमकाशाभिः परिखाभिर्वृता पुरीम्
प्राकारेणार्कवर्णेन शातकाम्भेन राजता । चयमूर्ध्नि निवेष्टेन चां
यथैवाभ्रमालया ॥ १२ ॥ काननैर्नन्दनप्रसूयैस्तथा चैत्ररथोपमैः ।
वभौ चारुपरिजिता द्वारका चौरिवाम्बुदैः ॥१३॥ वभौ रैवतकः

के कार्यके लिये कृष्ण सदा उद्यत रहते हैं और यह महावली भयं-
कर संग्रामोंको किया करते हैं इन्द्रके वचनसे विश्वकर्माने उस
पुरीमें जाकर उस पुरीको चारों ओरसे इन्द्रकी अमरावती पुरी
समान सजा दिया, पत्नीकी सवारी करने वाले दशार्होंके स्वामी
ने विश्वकर्माके दिव्य अभिप्रायोंसे अलंकृत पुरीको देखा ७-८
उस समय द्वारकाको देख कर नारायण मधु मसन्न होगए और
सर्वार्थसम्पन्न हो मसन्नतासे द्वारकामें घुसे ९ तहाँ पर दाशार्हने
विश्वकर्माके चित्रित किये हुए नेत्र और मनको लुभाने वाले रम-
णीय वृक्षोंको देखा ॥ १० ॥ तथा उन्होंने पत्नीके समूहसे मञ्जी
हुई, हंसोंसे सेवित जलवाली गंगा, और सिन्धु नदीकी समान
मकाशित परिखाओंसे घिरी हुई पुरीको (देखा) ॥ ११ ॥
जैसे आकाश बादलोंकी मालासे शोभा पाता है, इसी प्रकार उन्हों
ने अट्टालिकाओंके मस्तक तक चले गए सूर्यकी समान तेजस्वी
सुवर्णकी समान वर्ण वाले परकोटेसे (सुशोभित द्वारकापुरीको
देखा ॥ १२ ॥ नन्दनवन और चैत्ररथ वनकी समान वगीचोंसे

शैलो रम्पसानुगुहाजिरः । पूर्वस्थां दिशि लक्ष्मीवान् मणिकचन-
 तोरणः ॥ १४ ॥ दक्षिणस्यां लताविष्टः पञ्चवर्णो विराजते ।
 इन्द्रकेतुमतीकाशः पश्चिमायां तथाऽक्षयः ॥ १५ ॥ उत्तरां दिश-
 मत्यर्थं विभूषयति वेणुमान् । मन्दराद्रिमतीकाशः पाण्डुरः पार्थि-
 वर्षभ ॥ १६ ॥ चित्रकं पञ्चवर्णं च पाञ्चजन्यं वनं महत् । सर्वर्तुक-
 वनं चैव भाति रैवतकं प्रति ॥ १७ ॥ लतावेष्टितपर्यन्तं, मेरुपभ-
 वनं महत् । भाति भानुवनं चैव पुष्पकं च महद्दनम् ॥ १८ ॥
 अक्षकैर्बीजकैश्चैव मन्दारैश्चोपशोभितम् । शतावर्तवनं चैव कर-
 वीराकरं तथा ॥ १९ ॥ भाति चैत्ररथं चैव नन्दनं च वनं महत् ।
 रमणं भावनं चैव वेणुमद्वै समन्ततः ॥ २० ॥ गौर्दूर्यपत्रैर्जलजै-

गञ्जी हुई द्वारका में शोभा दे रही है । इन्द्रकाशकी समान दीखती थी १३
 मनोहर शिखर गुहा और प्राङ्गण (बीचकी समतल भूमि) वाला
 रमणीय रैवत पर्वत शोभा दे रहा था उस शोभागय पर्वतके पूर्व
 की ओर मणि और सुवर्णके तोरण थे अर्थात् पूर्वकी ओर उस
 में मणि और सुवर्णसे जटित घाटिये थीं ॥ १४ ॥ उसके दक्षिण
 की ओर वेलोंसे भरा हुआ पञ्चवर्ण (नामक वाग) शोभा दे
 रहा था और पश्चिम दिशाकी ओर इन्द्र-धनुषकी समान अक्षय
 (नामक वाग शोभा दे रहा था) ॥ १५ ॥ हे नरेन्द्र ! उत्तर
 दिशाकी ओर मन्दराचलकी समान श्वेत वेणुमान् पर्वत अति-
 शोभा दे रहा था ॥ १६ ॥ रैवतक पर्वत पर चित्रक वाग पञ्च-
 वर्ण वाग और यड़ाभारी पाञ्च-जन्य वाग तथा सर्वर्तुक वाग
 शोभा दे रहा था ॥ १७ ॥ अन्त तक वेलोंसे गच्छे हुए मेरुपर्वतसे
 भी अधिक कान्ति वाले भानुवन और पुष्पकवन भी तहाँ शोभा
 दे रहे थे १८ तहाँ अक्ष (रुद्राक्ष) बीजक और मन्दारोंसे सुशो-
 भित शतावर्त वाग और करवीर वाग भी था १९ तहाँ चैत्ररथ
 और बड़ाभारी नन्दन नामक वाग भी शोभा दे रहा था और

स्तदा मन्दाकिनी नदी । भाति पुष्करिणी रम्या पूर्वस्यां दिशि
 भारत ॥२१॥ साजवो भूपितास्तत्र केशवस्य पियैपिभिः । बहु-
 भिर्देवगन्धर्वैश्चोदितैर्विश्वकर्माणां ॥२२॥ महानदी, द्वारवती पञ्चा-
 शद्विर्महासुखैः । पवित्रा पुण्यसलिला, भावयन्ती समन्ततः ॥२३॥
 अप्रमेयां महोत्सेधामगाधपरिखायुताम् । माकारवरसम्पन्नां सुधा,
 पाण्डुरलेपनाम् ॥ २४ ॥ तीक्ष्णयन्त्रशतघ्नीभिर्हेमजालैश्च भूपि-
 ताम् । आपसौश्च महाचक्रैर्ददर्श द्वारकां पुरीम् ॥ २५ ॥ अष्टौ
 रथसहस्राणि नगरे किंकिणीकिनाम् । समुच्छ्रितपताकानि यथा
 देवपुरे तथा ॥ २६ ॥ अष्टयोजनविस्तीर्णामिचलां द्वादशायताम् ।
 द्विगुणोपनिवेशां च ददर्श द्वारकां पुरीम् ॥ २७ ॥ अष्टमार्गमहा-

प्रशंसनीय रमणीय वेणुमान् वाग भी. तहाँ शोभा देरहा या २०
 हे भारत ! (द्वारकाकी) पूर्वा दिशामें सुवर्णके पत्र वाले कमलों
 वाली रमणीय मन्दाकिनी नदी शोभा पारही थी २१ केशवका
 पिय करना चाहने वाले बहुतसे देवता और गन्धर्वोंने विश्वकर्मा
 के प्रेरणा करने पर उसके कँगूरोंको सजा दिया था २२ पवित्र-
 सलिला महानदी मन्दाकिनी पचासों महासुख (बड़ी २ धारों)
 से चारों ओरसे पवित्र करती हुई द्वारकामें घुसी २३ अप्रमेय
 बड़े २ भवनों वाली, अगाध खाई वाली, अष्ट परकोटेसे सम्पन्न
 सुधा और पाण्डुरकी समान वर्ण वाली, तीक्ष्ण यन्त्र तोप और
 सुवर्णकी जालियोंसे और लोहेके बड़े २ चक्रोंसे विभूषित द्वारका
 को (गोविन्दने) देखा २४ घुघुँरू वाले और ऊपर लगी हुई
 पताका वाले आठ हजार रथ जैसे देवपुरमें खड़े हों वैसे द्वारका
 में खड़े हुए थे २५ श्रीकृष्णने देखा कि—द्वारका बत्तीस कोस
 चौड़ी और अड़तालीस कोस लम्बी होगई है और उसके उप-
 निवेश (शाखानगर) इससे दुगुने लम्बे चौड़े हैं २७ आठ मार्गकी
 बड़ी भारी गली वाली, सोलह बड़े बड़े चौकों वाली और एक

रथ्यां महापौडशचत्वराम् । प्रकगार्गपरिज्ञितां साक्षादुशनसा
 कृताम् २८ स्त्रियोपि यस्यां युद्धेरन्-किमु वृष्णिमहारथाः । व्यूहा-
 नामुत्तमा मार्गाः सप्त चैव महापथाः ॥ २६ ॥ तत्र च विहिताः
 साक्षाद्विधा विश्वकर्मणा । तस्मिन् पुरवरश्रेष्ठे दाशार्हाणां यश-
 स्विनाम् ॥ २७ ॥ वेशमानि जहृपे दृष्ट्वा ततो देवकीनन्दनः । काञ्च-
 नैर्मणिसेपानैरुपेतानि नृहर्षणैः ॥ २१ ॥ भीमघोपगहाघोपैः मासाद-
 चरचत्वरैः । समुच्छ्रितपताकानि पारिप्लववनानि च ॥ ३२ ॥
 काञ्चनाग्राणि भास्वन्ति मासादशिखराणि च । गृहाणि रम-
 णीयानि मेरुकूटनिभानि च ॥ ३३ ॥ पाण्डुपाण्डुरशृङ्गैश्च शात-

मार्ग वाली साक्षात् शुक्राचार्यकी समान बनाई हुई (द्वारकाको) कृष्णने देखा (अर्थात् घरोंकी पाँच पंक्तियोंकी चार गलियँ होती हैं ये दोनों ओर बन कर बीचमें सड़क रखने पर आठ होजाती हैं, प्रत्येक गलीमें दो चौक थे इस प्रकार तहाँ सोलह चौक थे, और सड़ककी संधि अलग थी इस प्रकार प्रत्येक गलीकी तीन तीन सन्धिएँ थीं और सड़क बीचमें एक ही थी) ॥ २८ ॥ उसमें तो छियें भी लड़ सकती थी, फिर वृष्णिवंशी महारथियों की तो बात ही क्या ? उसमें व्यूहोंके उत्तम मार्ग (छावनिए) बनाए गए थे और सात महामार्ग (बड़ी २ छावनी) बनाए गए थे ॥ २६ ॥ इस प्रकार विश्वकर्माने यशस्वी दाशार्ह वंशियोंके श्रेष्ठ नगरमें अनेक प्रकारके काम बनाए थे ॥ २७ ॥ देवकीनन्दन सुवर्णके बने हुए और मणियोंकी सीढ़ियों वाले तथा मनुष्योंके हर्षित करने वाले घरोंको देख कर प्रसन्न हुए ॥ ३१ ॥ उनमें ऊँची २ अटारियों और आँगन थे और उनमें (मनुष्योंके कारण) बड़ा घोप होगया था, ऊँची २ ध्वजावाले सरोवरों वाले बाग, और सुवर्णके अग्रभाग वाले महलोंके प्रकाशवान् शिखर, और मेरुपर्वतकी समान रमणीय घर (आदि कृष्णने देखे) ३२ ३३

कुम्भपरिष्कृतैः । रम्यसानुगृहैः शुद्धैर्विचित्रैरिव पर्वतैः ॥३४॥
 पञ्चवर्णैः सुवर्णैश्च पुष्पवृष्टिसमप्रभैः । पर्जन्यतुल्यनिर्घोषैर्ना-
 रूपैरिवाद्रिभिः ॥ ३५ ॥ दांवाग्निज्वलितप्रखरैर्निर्मितैर्विश्व-
 कर्मणा । आश्लेषद्विरिवाकाशमतिचन्द्रार्कभास्वरैः ॥ ३६ ॥
 तौर्दाशाहैर्महाभागैर्वभासे तद्गनद्रुमैः । वासुदेवेन्द्रपर्जन्यौर्गृहमेधो-
 रलंकृता ॥३७॥ ददृशे द्वारका चारु मेघैर्यौरिव सम्वृता । सात्ता-
 द्भगवतो वेश्म विहितं विश्वकर्मणा ॥३८॥ ददृशे वासुदेवस्य चतु-
 र्योजनमायतम् । तावदेव च विस्तीर्णमप्रमेयं महाधनम् ॥ ३९ ॥
 प्रासादवरसम्पन्नैर्युक्तं जगति पर्वतैः । पञ्चकार महाभागस्त्वष्टा
 वासवर्नोदितः ॥४०॥ प्रासादं चैव हेमाभं सर्वभूतमनोहरम् ४१

सुवर्ण, चढ़े हुए अति श्वेत शिखरों वाले और विचित्र शिखरों
 वाले पर्वतोंकी समान रमणीय कँगूरों वाले घरोंसे ॥३४॥ पँच-
 रंगे अञ्जोरंग वाले और पुष्पवृष्टिकी समान कान्ति वाले, पर्वतों
 की समाने अनेक प्रकारके (मनुष्योंके कारण) मेघकी समान
 गरजते हुए ३५ विश्वकर्माके द्वारा मदीप्त अग्निकी समान बनाए
 हुए, गगनचुम्बी (घरोंसे और) चन्द्रमा और सूर्यसे भी अधिक
 तेजस्वी महाभाग दाशाहोंसे और बगीचोंके वृक्षोंसे (वह द्वारका)
 दमकने लगी, वासुदेवरूपी इन्द्रमेघोंसे और घररूपी मेघोंसे अलं-
 कृत द्वारका सुन्दर मेघोंसे घिरे हुए आकाशकी समान, शोभा पाने
 लगी, विश्वकर्माने अपने आपही गगनान्का घर बनाया ३६-३८
 वासुदेवका घर सोलह कोस चौड़ा दीखता था और इतना ही
 लम्बा था, अप्रमेय था और उसमें बहुत धन था ॥ ३९ ॥ उस
 में श्रेष्ठ र भवन बन रहे थे और क्रीड़ा करनेके लिए टीले बन
 रहे थे, इन्द्रकी प्रेरणासे महाभाग विश्वकर्माने यह सब बनाया
 था ॥४०॥ विश्वकर्माने रुक्मिणीका काञ्चन नामक भवन मेघ-
 पर्वत शिखरकी समान ऊँचा बनाया, वह सब प्राणियोंकी मनो-

मेरोरिव गिरेः शृङ्गमुच्छ्रितं काञ्चनं महत् । रुक्मिण्याः प्रवरं
 वासं विहितं विश्वकर्मणा ॥ ४२ ॥ सत्यभामा पुनर्वेश्म यदा-
 ज्वसत पाण्डुरम् । विचित्रगणिसोपानं तद्विदुर्भोगवन्निता ॥ ४३ ॥
 विगलादित्यवर्णाभिः पताकाभिस्तंकृतम् । व्यक्तसञ्जवनोद्देशो
 यश्चतुर्दिग्भ्रमहाध्वजः ॥ ४४ ॥ स च प्रासादमुख्योथ जाम्बवत्या
 विभूषितः । प्रभयाभ्यभवत् सर्वास्तानन्यान् भास्करो यथा ४५
 उद्यद्भास्करवर्णाभस्तयोरन्तरमाश्रितः । विश्वकर्मकृतो दिव्यः
 कैलासशिखरोपमः ॥ ४६ ॥ जाम्बूनद इवादीप्तः प्रदीप्तज्वलनो
 यथा । सागरप्रतिमोत्तिष्ठः मेरुरित्यभिविश्रुतः ॥ ४७ ॥ तस्मिन्
 गान्धारराजस्य दुहिता कुलशालिनी । गान्धारी भरतश्रेष्ठ केश-
 वेन निवेशिता ॥ ४८ ॥ पद्मकूल इति स्वघातं पद्मवर्णं महा-

हर लगता था और उस भवनकी कान्ति सुवर्णकी समान
 थी ॥ ४१॥४२ ॥ फिर सत्यभामाका पाण्डुर वर्ण माला भवन
 बनाया उसमें विचित्र गणियोंकी सीढ़ियें बनी हुई थी उसको
 भोगवान् भवन कहते थे ४३ एक विगल सूर्यकी समान झंडियोंसे
 अलंकृत व्यक्तसञ्जवन भवन था, उसमें नित्य नई २ बातें होती
 रहती थीं और उसमें चारों दिशाओंमें चढ़ी २ ध्वजाएँ लग रही
 थीं ॥ ४४ ॥ वह शोभायमान मुख्य घर जाम्बवतीके लिए बनाया
 गया, वह सूर्यकी समान भवन अपनी कान्तिसे दूसरे भवनोंकी
 कान्तिकी फीकी कर रहा था ॥ ४५ ॥ उदय होते हुए सूर्यकी
 सगान कान्तिवाला विश्वकर्माका बनाया हुआ कैलासके शिखर
 की समान वह दिव्य भवन उन दोनों भवनोंके बीचमें खड़ा था ४६
 सुवर्ण और प्रदीप्त अग्निकी सगान और उजलते हुए समुद्रकी
 समान उठा हुआ मेरु नामक प्रसिद्ध भवन बना था ॥ ४७ ॥
 हे भरतभेन्द्र ! उसमें केशवने गान्धारराजकी पुत्री कुलवती
 गान्धारी (सत्या) को बनाया ॥ ४८ ॥ भीमाका सुवर्णकी सगान

मभम् । सुभीमाया महाकूटं वासं सुहविरमभम् ॥ ४६ ॥ सूर्य-
 भवस्तु प्रासादः सर्वकामगुणोद्युतः । लक्ष्मणाया नृपश्रेष्ठ निर्दिष्टः
 शार्ङ्गधन्वना ॥ ५० ॥ वैदूर्यमखिवर्णाभः प्रासादो हरितमभः ।
 यं विदुः सर्वभूतानि परमित्येव भारत ॥ ५१ ॥ वासन्तं मित्र-
 चिन्दाया देवपिंगणपूजितम् । महिष्या वासुदेवस्य भूपणं तेषु
 वेशमसु ॥ ५२ ॥ तत्र प्रासादमुख्यो वै विहितो विश्वकर्मणा ।
 अतीव रम्यरम्योऽसौऽधिष्ठितः पर्वतो यथा ॥ ५३ ॥ सुवार्ताया
 निवासं त प्रशस्तं सर्वदैवतैः । महिष्या वासुदेवस्य केतुमानिति
 विश्रुतः ॥ ५४ ॥ तत्र प्रासादमुख्यो वै यं त्वष्टा विदधे स्वगम् ।
 योजनायतविष्कम्भः सर्वरत्नमयः शुभः ॥ ५५ ॥ स श्रीमान्
 विरजा नाम व्यराजतत्र सुमभः । उपस्थागृहं यत्र केशवस्य

वर्णं माला और सुन्दर प्रभावाला और वड़े २ कँगुरों वाला
 भवमं पद्मकूल नामसे प्रसिद्ध था ॥ ४९ ॥ हे नृपश्रेष्ठ ! शार्ङ्ग
 धनुषको धारण करने वाले भगवान्‌ने लक्ष्मणाको सब इष्ट गुणों
 से युक्त सूर्यभ नागक भवन दिया ॥ ५० ॥ हे भारत ! वैदूर्य
 मखिके वर्णकी समान आभा वाला हरी प्रभावाला (एक भवन
 बना हुआ था) उसको सब “ पर भवन ” कहते थे ॥ ५१ ॥
 वह देवता और ऋषियोंसे पूजित भवन मित्रचिन्दाको भवन था
 वासुदेवकी रानीका वह भवन भवनोंमें भूषणरूप था ॥ ५२ ॥
 विश्वकर्माने तहाँ पर एक मुख्य भवन बनाया था, वह अतीव
 रमणीय भवन पर्वतकी समान अधिष्ठित था ॥ ५३ ॥
 वह सब देवताओंसे पूजनीय वासुदेवकी महिषी सुवार्ताका भवन
 केतुमान् नामसे प्रसिद्ध था और तहाँ पर विश्वकर्माने अपने आप
 जिस मुख्य भवनको बनाया था, वह सब रत्नोंसे रमणीय था
 और चार कोस चौड़े विष्कम्भ वाला था ॥ ५५ ॥ वह सुन्दर
 प्रभा वाला भवन विरजा नाम (से प्रसिद्ध था) उस घरमें

महात्मनः ॥ ५६ ॥ तस्मिन् सुविहिताः सर्वे रुक्मदण्डाः पता-
किनः । सद्ने वासुदेवस्य मार्गसञ्जवनध्वजाः ॥ ५७ ॥ रत्नजालानि
दिव्यानि तत्रैव च निवेशिताः । आहृत्य यदुसिंहेन वैजयन्तो-
ऽचलो महान् ॥ ५८ ॥ हंसकूटस्य यच्छृङ्गमिन्द्रद्युम्नसरः प्रति ।
पट्टितालसमुत्सेधमर्धयोजनमायतम् ॥ ५९ ॥ सर्किन्नरमहानागं
तदप्यमिततेजसा । पश्यतां सर्वभूतानामानीतं लोकविश्रुतम् ६०
आदित्यपथगं यत्तु मेरोः शिखरमुत्तमम् । पृथ्वरीकशतैर्जुष्टं विमा-
नैश्च हिरण्यैः ॥ ६१ ॥ जाम्बूनदमयं दिव्यं त्रिषु लोकेषु विश्रु-
तम् । तदप्युत्पाट्य कृष्णार्थमानीतं विश्वकर्मणा ॥ ६२ ॥ आग-
मानमतीराग्यं सर्वोपधिसमन्वितम् । तदिन्द्रवचनात्त्वष्टा कार्यहेतोः
समानयत् ॥ ६३ ॥ पारिजातश्च तत्रैव केशवेनाहृतः स्वयम् ६४

महात्मा केशव उपासना किया करते थे । ५६। उसमें सब सुवर्ण
के दण्डे वाली पताका लगाई गई थीं, और वासुदेवके भवनमें
मार्गको बनाने वाली ध्वजाएँ लगी हुई थीं ॥ ५७ ॥ और तहाँ
पर दिव्य रत्नोंकी जालिएँ लगाई गई थीं, यदुसिंहेने तहाँ पर
बड़े भारी वैजयन्त अचलको लाकर धर दिया था ५८ इन्द्रद्युम्न
सरोवर पर जो साठ ताल ऊँचा और आग कोस चौड़ा हेमकूट
का शिखर था ५९ किन्नर और महानागोंसे सेवित उस संसार-
प्रसिद्ध शिखरको भी सब प्राणियोंके सामने अमित-तेजस्वी
(विश्वकर्मा) उठा लाए ६० आदित्यमार्गमें जो सैंकड़ों कमल
और सुवर्णके विमानोंसे विभूषित मेरुका सुवर्णपथ उत्तम शिखर
है उस त्रिलोकीमें प्रसिद्ध शिखरको भी विश्वकर्मा श्रीकृष्णके लिए
उखाड़ लाये । ६१। ६२। उसका अग्रभाग अतीव शोभा पारदा था
और वह सब औपधियोंसे युक्त था उसको विश्वकर्मा इन्द्रके कहने
से उखाड़ लाये थे ६३ तहाँहीसे केशव पारिजातको उखाड़ लाये
थे, जब वह उसको लारहे थे तब उन अद्भुत कर्म करने वालेका

नीयमाने तु तत्रासीद्युद्धमद्भुतकर्मणः । कृष्णस्य येऽभ्यरत्नंस्तु
 देवाः पादपमुत्तमम् ॥ ६५ ॥ पुण्डरीकशतैर्जुष्टं विमानैश्च हिर-
 ण्मयैः । विहिता वासुदेवार्थं रत्नपुष्पफलद्रुमाः ॥ ६६ ॥ पद्म
 खण्डजलोपेता रत्नसौगन्धिकोत्पलाः । मणिहेमप्लवाकीर्णाः
 पुष्करिण्यः सरांसि च । ६७ ॥ तासां परमकूलानि शोभयन्ति
 महाद्रुमाः । शालास्ताला कदम्बाश्च शतशाखाश्च रौहिणाः ६८
 ये च हैमवतो वृक्षा ये च मेरुहास्तथा । आहृत्य यदुसिंहार्थं
 विहिता विश्वकर्मणा ॥ ६९ ॥ रक्तपीतारुणश्यामाः श्वेतपुष्पाश्च
 पादपाः । सर्षटुफलसम्पन्नास्तेषु काननसन्धिषु ॥ ७० ॥ सम
 कूलजलोपेताः शान्तशर्करवालुकाः । तस्मिन् पुरवरे नद्यः प्रसन्न-
 सलिला हृदाः ॥ ७१ ॥ पुष्पाकुलगलोपेता नानाद्रुमलताकुलाः ।

उस उत्तम वृक्षके रत्नक देवताओंसे युद्ध हुआ था ॥ ६४ ॥ ६५ ॥
 उस वृक्षकी सैंकड़ों सुवर्णके विमान और कमल सेवा करते रहते
 थे, विश्वकर्माने वासुदेवके लिये रत्नोंके पुष्प और फल वाले
 वृक्ष और सुवर्णके कमलोंके जल वाली, सौगन्धिक कमलों वाली
 और सुवर्ण तथा मणियोंकी नावोंसे भरी हुई नावदियें और सरो-
 वर भी (बना दिये थे) ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ उनके तटोंको शाल ताल
 कदम्ब शतशाख और रौहिणके वृक्ष सुशोभित कर रहे थे । ६८।
 जो वृक्ष हिमवान् पर्वत पर हैं और जो वृक्ष मेरु पर्वत पर उत्पन्न
 होते हैं उन सबको विश्वकर्मा तहाँसे हरिके लिये उखाड़ लाए ६९
 तहाँ पर बागोंकी सन्धियोंमें लाल पीले अरुण और श्याम वर्णके
 तथा श्वेत पुष्पवाले वृक्ष थे उनमें सब ऋतुओंमें फल आते रहते
 थे ॥ ७० ॥ उस श्रेष्ठ नगरमें समान तट और जलवाली और
 शान्त बालुकावाली और निर्मल जलवाले कुण्डोंवाली नदियें
 थीं ७१ तहाँ पर दूसरी नदियें, पुष्पोंसे आकुल जल वाली तथा ;
 अनेक प्रकारके वृक्ष और लताओंसे गन्नी हुई और सुवर्णकी

अपराश्चाभवन्नद्यौ हेमशर्करवातुकाः ॥८२॥ मत्तवाहणसंधीश्च
 कोकिलैश्च सदागदैः।वभूतुः परपोषेतास्तस्यां पुर्यां च पादपाः७३
 तत्रैव गजयूथ नि पुरे गोमहिपास्तथा निवासश्च कृतस्तत्र वराह
 मृगपत्तिभिः ॥ ७४ ॥ पुर्यां तस्यां तु रम्यायां प्राकारो वै हिर-
 ण्मयः । व्यक्तः किष्कुशतोत्सेधो विहितो विश्वकर्मणा७५ ज्ञातीश्च
 रम्यः सोऽथासीद्वेपितः पर्वतो यथा । ते च ते च महाशैलाः सरि-
 तश्च सरांसि च । परिक्षिप्तानि भौमेन वनान्युपवनानि च ७६
 इति श्रीमहाभारते विलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि द्वारकाविशेष-
 निर्माणं नामाष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥

वैशम्पायन उवाच । एनमालोकयानः स द्वारकां दृष्टभेक्षणः ।

अपरयत् स्वगृहं कृष्णः मासादशतशोऽमितम् ॥१॥ मणिस्रग्भ-
 सहस्राणांभयुतैर्विवृतं शतैः । तौरणैर्ज्वलनपरुषैर्मणिविद्रुमराजतैः २

रेतीवाली थी ॥ ७२ ॥ उस नगरीमेंके वृक्ष मदमें भरे हुए भौरों
 से और सर्वदा मदपत्त रहने वाली कोकिलाओंसे बहुत ही अधिक
 व्याप्त रहते थे ॥७३॥ तहाँ पर हाथियोंके झुण्ड और गौछों तथा
 भैंसोंके झुण्ड भी रहने थे तथा उस नगरमें सूअर हिरन और
 पत्तियोंने तो अड़्डा ही बनालिया था ॥ ७४ ॥ उस रमणीय
 पुरीमें सुवर्णका परकोटा था उसको विश्वकर्माने सौ हाथ ऊँचा
 बनाया था ॥ ७५ ॥ वह पर्वतसे लिखटाहुआ परकोटा अति-
 रमणीय गतीत होता था विश्वकर्माने ही यह सब महापर्वत नदी
 तालाब और बाग बगीचे बनाए थे ॥७६॥ अद्वानेर्वाँ अध्याय
 समाप्त ॥ ६८ ॥ छ छ छ छ छ

वैशम्पायनजीने कहा, कि दृष्टभकी समान नेत्रोंवाले कृष्णने
 इसप्रकार द्वारकाको देवने २ सैं हड़ों परनोंसे सुराभित अरने
 परको भी देगा ॥ १ ॥ उपमें मणियोंके एक लाख खम्भे लग
 रहे थे और मणि शृंगे और चँदीके अग्निकी समान सैं हड़ों

तत्र तत्र गभासद्विरिचित्रकाञ्चनवेदिकैः । भासादस्तत्र सुमहान्क-
ण्णोपस्थानिकोऽभवत् ॥ ३ ॥ स्फाटिकस्तम्भविभृतो विस्तीर्ण
सर्वकाञ्चनः । पद्माकुलजलोपेता रक्तसौगन्धिकोत्पलाः ॥ ४ ॥
मणिहेपनिभारिचित्रा रत्नसोपानभूषिताः । मत्तवर्हिणजुष्टाश्च को
किलेश्वर सदापदैः ॥ ५ ॥ यभूवु परमोपेता पाप्यश्च विकचो-
त्पलाः । विश्वकर्मकृतः शैलाः प्राकारस्तस्य वेश्मनः ॥ ६ ॥ व्यक्त-
किंकुशतोत्सेधः परित्रापरिवेष्टितः । तद्दृष्ट्व हृष्टिणसिंहस्य नि-
र्गित विश्वकर्मणा ॥ ७ ॥ महेंद्रसदृश वेश्म । समन्तादर्षयोजनम् ।
तत्रस्थ पाण्डुर शौरिभूर्न्यातिष्ठद्वरमतः ॥ ८ ॥ गीतः अस्वमु-
पाध्मासीद् द्विपतां रोमहर्षणम् । तस्य शश्वस्य शब्देन सागरश्चु-
जुभे भूषाम् । ररास च नभः कृत्स्नं तच्चित्रमभवत्तदा ॥ ९ ॥

तोरणोंसे बड़ स्यान शोभा पा रहा था ॥ २ ॥ इधर उधर गकाश
करती हुई विचित्र सुवर्णकी वेदियोंके कारण वह कृष्णके उपस्थान
का घर बहुत लम्बा चौड़ा लग रहा था ॥ ३ ॥ वह स्फाटिक मणि
के स्तम्भोंसे घिरा हुआ था सब सुवर्णका ही बना हुआ था उनकी
बावटियों कगल परे जलवाली और लाल सौगन्धिक कमलोंवाली
थी उनकी सीढियों मणि और सुवर्णकी समान रत्नोंसे विभूषित
थी और वह मदपत्त मयूर और सर्वादा मदपत्त रहनेवाली कोकि-
लाओंसे विभूषित थी विश्वकर्माका बनाया हुआ गिरि उस घर
का परकाटा था ॥ ४ ॥ ६ ॥ वह मौ हाथ ऊँचा स्पष्ट प्रतीत
होता था और खाइयोंसे घिरा हुआ था इसप्रकार विश्वकर्माने
वृष्णिणसिंह श्रीहृष्णके घरकी इन्द्रके भवनकी समान बनाया था
वह चारों ओरसे दो दाँ कोस था वहाँ पर स्थित पाण्डुरवर्ण बाले
भद्रनमें कृष्ण गरुडजीके मस्तक पर सवार हो गए ॥ ७ ॥ ८ ॥
तब उन्होंने प्रसन्न होकर शत्रुओंको रोमाञ्चित करनेवाला शंख
बजाया उस शंखके शब्दसे समुद्र अनीब जुग होने लगा और

पाञ्चजन्यस्य निर्घोषं संश्रुत्य कुकुरांधकाः । विशोकाः समपद्यंत
 गरुडस्य च दर्शनात् ॥ १० ॥ शंखचक्रगदापाणिं गरुडस्योपरि
 स्थितम् । दृष्ट्वा जहृपिरे पौरा भास्करोपमतेजसम् ॥ ११ ॥ तत-
 स्तूर्यपणादाश्च भेरीणां च महास्वनाः । जज्ञिरे सिंहनादाश्च
 सर्वेषां पुरवासिनाम् ॥ १२ ॥ ततस्ते सर्वदाशार्हाः सर्वे च कुकुरा-
 न्धकाः । गीयमाणाः समाजगुरालोक्य मधुसूदनम् ॥ १३ ॥ वासु-
 देवं पुरस्कृत्य शंखतूर्यरथैः सह । उग्रसेनो ययौ राजा वसुदेव-
 निवेशनम् ॥ १४ ॥ आनन्दिनी पर्यचरत् स्वेषु वेश्मसु देवकी ।
 रोहिणी च यशोदा च आहुकस्य च याः स्त्रियः ॥ १५ ॥ ततः
 कृष्णः सुपर्णेन स्वं निवेशनमभ्यगात् । चचार च यथोद्देशमी-
 श्वरानुचरो हरिः ॥ १६ ॥ अवतीर्य गृहद्वारि कृष्णस्तु यदुनंदनः ।

सारा आकाश भी गतिध्वनि करने लगा यह एक अद्भुत बात
 हुई ॥१६॥ कुकुर और अन्धकांशी पांचजन्यके शब्दको सुनकर
 और गरुडका दर्शन करके शोक-रहित होगए १० शंख चक्र और
 गदाको हाथमें धारण करनेवाले और सूर्यकी समान तेजस्वी
 कृष्णको गरुड पर बैठ आ देखकर नगरनिवासी प्रसन्न होने
 लगे ॥११॥ तदनन्तर सूर्योके नाद नगाडोंके बड़ेभारी शब्द और
 सब पुरवासियोंके सिंहनाद होनेलगे ॥ १२ ॥ उस समय मधु-
 सूदनको देखकर सब दाशार्ह और सब कुकुर तथा अन्धक प्रसन्न
 होते हुए आने लगे १३ राजा उग्रसेन श्रीकृष्णको आगे कर शंख
 और सूर्योकी ध्वनिके साथ वसुदेवकीके घरको चला १४ उस समय
 आनन्दिनी देवकी रोहिणी यशोदा और आहुककी स्त्रियों भी
 अपने २ घरोंमें विचरण करनेलगीं १५ तदनन्तर श्रीकृष्ण गरुड
 पर बैठ अपने घर पर पहुँच गए फिर इन्द्र आदि अनुचर जिनके
 ईश्वर हैं ऐसे हरि इच्छानुसार घूमनेलगे १६ यदुनन्दन और यादवों
 में श्रेष्ठ कृष्णने अपने घरके द्वार पर उतरनेके पीछे यादवोंकी यथो-

यथाहं पूजयामास यादवान् यादवर्षगः ॥ १७ ॥ रामाहुकगदा-
 क्रूरप्रद्युम्नादिभिरर्चितः। प्रविवेश गृहं शौरिरादाय मणिपर्वतम् १८
 तं च शक्रस्य दमितं पारिजातं महाद्रुमम् । प्रवेशयामास गृहं प्र-
 द्युम्नो रुक्मिणीसुतः ॥ १९ ॥ तेन्योन्गं ददृशुर्वीरा देहबन्धान-
 मानुषान् । पारिजातप्रभावेण ततो मुमुदिरे जनाः ॥ २० ॥ तैः
 स्तूयमानो गोविन्दः प्रहृष्टैर्षादवर्षभैः । प्रविवेश गृहं श्रीमान् वि-
 हितं विश्वकर्मणा ॥ २१ ॥ ततोतःपुरमध्ये तं समृद्धमणिपर्वतम् ।
 निवेशपदमेवात्मा वृष्णिभिः सहितोऽन्युतः ॥ २२ ॥ तं च दिव्यं
 द्रुमश्रेष्ठं पारिजातममित्रजित् । अर्च्यमर्चितमव्यग्रमिष्टे देशे न्यवे-
 शयत् ॥ २३ ॥ अनुज्ञाप्य ततो ज्ञातीन् केशवः परवीरहा । ताः
 स्त्रियः पूजयामास संहया नरकेण याः ॥ २४ ॥ वस्त्रैराभरणै-

चित पूजाकी ॥ १७ ॥ बलराम उग्रमेन गद् अक्रूर और प्रद्युम्न आदि
 से पूजा पाते हुए कृष्ण मणिपर्वतकी लेकर अपने घरमें घुसे १८
 रुक्मिणीका पुत्र प्रद्युम्न इन्द्रके प्यारे महावृक्ष पारिजातको घरमें
 लेगया ॥ १९ ॥ उन दोनों वीरोंने पारिजातके प्रभावसे अपने
 देहबन्धनोंको अपानुप देखा तदनन्तर पारिजातके प्रभावसे मनुष्य
 भी प्रसन्न होने लगे ॥ २० ॥ हर्षमें भरे हुए श्रेष्ठ २ यादवोंसे
 स्तुतिपाते हुए गोविन्द विश्वकर्माके रचे हुए घरमें घुसे ॥ २१ ॥
 तदनन्तर अमेवात्मा अव्युत विष्णुने वृष्णियोंके साथ आकर
 अन्तःपुरके मध्यमें शिवरसहित मणिपर्वतको स्थापित कर दिया
 और शत्रुओंको गीतनेवाले उस पूजनीय दिव्य वृक्ष पारिजातकी
 पूजा करके उस अव्यग्र वृक्षको उसके इष्ट स्थानमें धरदिया २२-२३
 तदनन्तर शत्रुओंके वीरोंका नाश करनेवाले केशवने अपनी जाति
 वालोंको जताकर नरकासुर जिनको बिनादृषित लिपे ले आया
 था उन स्त्रियोंकी पूजाकी ॥ २४ ॥ बसुदेवने और देवकी
 रोहिणी तथा रेवती और आहुकने उन स्त्रियोंको दिव्य वस्त्र

दिव्योर्दासीभिर्धनसञ्चर्यैः । हरैश्चन्द्रांशुसंकाशैर्मणिभिश्च महा-
प्रभैः ॥ २५ ॥ पूर्वमभ्यर्चिताश्च वसुदेवेन ताः स्त्रियः । देवक्या
सह रोक्षिण्या रेवत्या चाहुकेन च ॥ २६ ॥ सत्यभामोत्तमां स्त्रीणां
सौभाग्यनाभश्चत्तदा । कुटुम्बस्येश्वरी त्वासीद्विक्रमणी भीष्मका-
त्मजा ॥ २७ ॥ तासां यथार्हहर्म्याणां मासादशिखराणि च ।
आदिदेश गृहान कृष्णः पारिवर्हाश्च पुष्कलान् ॥ २८ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वाणि द्वारकाप्रवेशाने
नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥

वैशम्पायन उवाच । ततः सम्पूज्य गरुडं वासुदेवोऽनुमान्य
च । सन्निवन्धोपगृह्यैनमनुजज्ञे गृहं प्रति ॥ १ ॥ सोऽनुज्ञातो हि
सत्कृत्य प्रणम्य च जनार्दनम् । ऊर्ध्वगाचक्रमै पत्नी यथेष्टं गगने-
चरः ॥ २ ॥ सपत्न्यातसत्तन्धं समुद्रं मकरालयम् । कृत्वा वेगेन
गङ्गा यगी पूर्वमहोदयिम् ॥ ३ ॥ कृत्यकाले उपस्थास्य इत्युक्त्वा

गङ्गे दासी-धन समूह चन्द्रमाकी किरणोंकी समान हार और
महाकान्तिमान् मणियोंसे पहले पूजाकी उस समय सत्यभामा
स्त्रियोंमें उत्तम सौभाग्यवती थी और भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी
कुटुम्बकी ईश्वरी वनगई थी ॥ २७ ॥ कृष्णने उनके लिये उचित
घर भवन शिखर और बहुतसे पारिवर्ह दिये थे २८ निन्यानवेवों
अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-तदनन्तर वासुदेवने गरुडजीकी
पूजाकी और उनका मित्रही समान सत्कार कर उनको घरजाने
की आज्ञादी ॥ १ ॥ कृष्णकी आज्ञा पाने पर वह पत्नी कृष्णकी
सत्कार कर और उनकी प्रणाम कर आकाशचारी होनेके कारण
आकाशमें इच्छानुसार ऊपरको चढ़े ॥ २ ॥ वह मगरोके निवास-
स्थान समुद्रके अगने पंखोंकी वायुसे जुबन करके बड़े वेगके साथ
पूर्वसमुद्रकी ओर चले ॥ ३ ॥ मैं मगयके ऊपर आऊंगा यह कह

गरुडे गते । कृप्यो ददर्श पितरं वृद्धगानकदुन्दुभिम् ॥ ५ ॥ उग्र-
सेनं च राजानं बलदेव च सात्यकिम् । काश्य सान्दीपनिञ्चैव
ब्राह्मणाश्च वथैव च ॥ ५ ॥ अन्याश्च वृद्धान् वृष्णीनां तांश्च
भोजान्प्रकाम्तथा । रत्नभवेकैर्दाशार्हान् वीर्यलब्धैस्तथार्चयत् ॥ ६ ॥
इता ब्रह्मद्विषः सर्वो जयन्त्यन्धकृष्णयः । रणात् प्रतिनिवृत्तोऽग-
मन्नतो मधुसूदनः ॥ ७ ॥ इति चत्वररथयासु द्वारवत्यां सुपूजितः ।
चाक्रिको घापयामास पुरुषो मृष्टकुण्डलः ॥ ८ ॥ ततः सादीपनिं
पूर्वापभिगम्य जनार्दनः । बबन्दे वृष्णिनृपतिमाहुकं विनयान्विनः
त ग हि परिपूर्णाङ्गानन्दांगतचेतसम् । बबन्दे सह रामेण पितरं
वासवः पुत्रः ॥ १० ॥ उपगम्य तथा शेषान् सत्कृत्य च यथार्हतः ।
सर्वेषां नाम जग्राह दशार्हणापथोत्तमः ॥ ११ ॥ ततः सर्वाणि

कर जच गरुडभी घलेणए तव कृष्णने अपने घृद्ध पिता बसुदेवभी
का दर्शन किया ॥ ५ ॥ उन्होंने राजा उग्रसेन बलदेव सात्यकि
काश्यप सान्दीपनि तथा श्रेष्ठ २ ब्राह्मण भोजजंशी अन्धकजंशी
घृष्णिषंशी और दशार्हजंशी घृद्धोंका वीर्यसे पाई हुए रत्नभी
पिटारियोंको देकर सत्कार किया ॥ ५ ॥ ६ ॥ तपे हुए कुण्डलों
को पहिरने वाला राजाकी आज्ञाको कहने वाला चाक्रिक भली
प्रकार पूजा पाकर द्वारवाके चौराहे और गलियोंमें ढँढोरा पीट
ने लगा, कि-सब ब्रह्मद्वेषी मारे गए, और घृष्णि तथा अन्धक-
जंशियोंकी जीत हुई है और यह मधुसूदन रणमेंसे अन्नत लौट
आए हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥ तदनन्तर जनार्दनने पहले सन्दीपिनीके
पास जाकर उनको प्रणाम किया फिर घृष्णिगोंके राजा आहुक
को विनयपूर्वक प्रणाम किया ॥ ६ ॥ तदनन्तर इन्द्रके छोटे भाई
कृष्णने बलदेवभीके साथ २ आनन्दसे भरे हुए चित्त शैले और
परिपूर्णनेत्र वाले अपने पिताको प्रणाम किया ॥ १० ॥ तदन-
न्तर मा भवने बाकी सबके पास जाकरभी उनका यथोचित सत्कार

दिव्यानि सर्वरत्नमयानि च । आसनाऽपाणि विविशुरूपेन्द्रमु-
 खस्तदा ॥ १२ ॥ ततस्तद्धनमन्त्रयं किंकरैर्यत् समाहृतम् । तत्
 सभामोनयामासुः पुरुषाः कृष्णशासनात् ॥ १३ ॥ ततः सम्मान-
 यागास दाशार्हाश्च यदुत्तमः । सर्वान्दुन्दुभिश्चन्द्रेण पूजयिष्यञ्ज-
 नार्दनः ॥ १४ ॥ तामामनवर्तो रम्यां मणिविद्रुपतोरणाम् । सभां
 सर्वादशार्हास्ते विविशुः कृष्णशासनात् ॥ १५ ॥ ततः पुरुषसिंहैर्या
 यदुभिः सर्गतो वृता । सर्वार्थगुणसम्पन्ना सा सभा भरतर्षभ ।
 शुशुभेऽभ्यधिकं शुभ्रा सिंहैर्गिरिशुहा यथा ॥ १६ ॥ रामेण सह
 गोविन्दः काञ्चनं गहदासनम् । उग्रसेनं पुरस्कृत्य भोजवृष्णि-
 पुरस्कृतः ॥ १७ ॥ तत्रोपविष्टस्तान् वीरान् यथा प्रीतिर्यथा वयः ।
 सभाभाष्य यदुश्रेष्ठानुवाच पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ १००

क्रिया तदनन्तर अधोजने सब दाशार्होंके नाम लिये ॥ ११ ॥
 तदनन्तर कृष्ण आदि सर्वरत्नमय दिव्य और श्रेष्ठ आसनोंपर
 बैठ गए ॥ १२ ॥ तदनन्तर जिस अक्षयधनको श्रीकृष्ण किंकरों
 से उठवाकर ले आए थे उसको कृष्णकी आज्ञासे पुरुष सभामें
 ले आए ॥ १३ ॥ तब यादवोंमें श्रेष्ठ जनार्दनने नगादोंके शब्द
 से सबकी पूजा कर सबका सम्मान किया १४ तदनन्तर कृष्ण
 की आज्ञासे वे सब दाशार्ह आसन वाली और मणिमूँगोंके तोरणों
 वाली रमणीय सभामें बैठ गए ॥ १५ ॥ तदनन्तर हे भरतर्षभ !
 पुरुषसिंह यादवोंसे चारों ओरसे गद्दी हुई सम्पूर्ण प्रयोजन और
 गुणोंसे सम्पन्न वह सभा सिंहोंसे व्याप्त शुभ्र गिरिशुहाकी समान
 अधिक शोभा पाने लगी १६ गोविन्दने भी बलरामके साथ सुवर्ण
 के एक बड़े भारी आसन पर बैठ गए उनके आगे उग्रसे बैठे
 हुए थे और उनको भोजवंशी और वृष्णिवंशियोंके आगे बैठा
 रखा था १७ तहाँ पर प्रीति और अवस्थाके अनुसार बैठे हुए
 यदुश्रेष्ठ वीरोंको सम्बोधित करके श्रीकृष्ण कहने लगे ॥ १८ ॥

श्रीकृष्ण उवाच । भवर्षा पुण्यकीर्तिना तपोबलसमाधिभिः ।
 ।पध्यानांश्च पापात्मा भीमः स नरको हतः ॥ १ ॥ मोक्षितं
 बन्धनाद् गुप्तं कन्यान्तः—पुरसत्तमम् । मणिपर्वतमुत्पाटय शिखरं
 चैतदोहृतम् ॥२॥ अयं धनीयः सुमहान् किंकरैराहतो मम । ईशा
 भवन्तो द्रव्यस्य तानुक्त्वा विरराम ह ॥३॥ तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य
 भोजवृण्यन्धका वनः । जहपुर्हृष्टरोमाणः पूजयन्तो जनार्दनम् ४
 कचुश्चैनं वृवीरास्ते कृताञ्जलिपुटास्ततः । गीतच्चित्रं महाघोर्हो
 त्वधि देवकिनन्दने ॥ ५ ॥ यत्कृत्वा दुष्करं कर्म देवैरपि दुरा-
 सदम् । लालये स्वजनान्भोगै रत्नैश्च स्वयमर्जितैः ॥ ६ ॥ ततः
 सर्वदशार्हाणामाहुकस्य च याः स्त्रियः । प्रीयमाणः समाजम्-
 वासुदेवदिदक्षया ॥ ७ ॥ देवकीसप्तमा देव्यो रोहिणी च शुभा-

श्रीकृष्णने कहा, कि—पुण्यमयी कीर्ति वाले आपके तप, बल
 और समाधिसे तथा अशुभ चिन्तवन करकेसे भूमिपुत्र पापात्मा
 नरक मारा गया १ और द्विपा हुआ कन्याओंका उत्तम अन्तः-
 पुर भी बन्धनसे छूट गया और मणि—पर्वतको उखाडकर उस
 का यह शिखर भी यहाँ आगया ॥२॥ इस बड़े भारी धनको
 मेरे किङ्कुर ले आए हैं इस सब धनके आप स्वामी हैं इस प्रकार
 कहकर वासुदेव चुप होगए ॥३॥ भोज वृष्णि और अन्धक वासु-
 देवके इस बचनको सुनकर रोमांचित हो जनार्दनकी पूजा करते
 हुए हँसने लगे ॥४॥ और उन वीरोंने हाथ जोड़ कर श्रीकृष्ण
 से कहा, कि—हे महाभुज देवकीनन्दन ! आपमें ऐसा होना कुल
 विचित्र बात नहीं है ॥ ५ ॥ कि—आप देवताओंसे भी दुरासद
 कर्म करके अपने आप इकठे किये हुए रत्नोंसे और भोगोंसे अपने
 मनुष्योंको लाड़ लड़ा रहे हैं ॥ ६ ॥ उस समय दशार्हवंशियोंकी
 और उग्रसेनकी जो स्त्रियें थीं, वे सब प्रसन्न होती हुईं श्रीकृष्ण
 का दर्शन करनेके लिए आईं ॥ ७ ॥ जिनमें देवकी सातवाँ थीं

नना । ददृशुः कृष्णमासीनं रामं चैव । महाभुजम् ॥ ८ ॥ तौ तु
 पूर्वमतिक्रम्य रोहिणीमभिवाद्य च । अभिवादयतां देवीं देवकीं
 रामकेशवीं । ६ । सा ताभ्यामृषभात्ताम्यां पुत्राभ्यां शुशुभेऽविका ।
 अदितिर्देवमातेव मित्रेण वरुणेन च ॥ १० ॥ ततः प्राप्तीं नराग्र्यौ
 तु तस्याः सा दृष्टिना तदा । एकानंशेति यामाहुर्नरा वी । काम-
 रूपिणीम् ॥ ११ ॥ तथा क्षणमुहूर्ताभ्यां यया जज्ञे सुरेश्वरः ।
 यत्कृते सगणं कंसं जघान पुरुषोत्तमः ॥ १२ ॥ सा कन्या वदृधे
 तत्र वृष्णि सन्ननि पूजिता । पुत्रवत् पान्यमाना वी वासुदेवाज्ञया
 तदा ॥ १३ ॥ एकानंशेति यामाहुरुत्पन्नां मानवा भुवि । योग-
 कन्मां दुराधर्षा रत्नार्थं केशवस्य ह ॥ १४ ॥ यां वी सर्वे सुमनसः
 पूजयन्ति स्म यादवाः । देववद्विन्द्यपुरुषः कृष्णः संरक्षितो यया

ऐसी देवियों और शुभमुखी रोहिणी महाभुज राम कृष्णको बैठा
 हुआ देखने लगी ॥ ८ ॥ राम और कृष्णने पहिले (सब स्त्रियों
 को) लाव कर रोहिणीको प्रणाम किया, फिर उन्होंने देवी देवकी
 को प्रणाम किया ॥ ९ ॥ वह माता अपने वृषभकी समान नेत्रों
 वाले दोनों पुत्रोंसे, मित्र (सूर्य) और वरुणसे शोभा पाने वाली
 देवमाता अदितिकी समान शोभा पाने लगी ॥ १० ॥ तदनन्तर
 देवकीकी वह पुत्री उन नरश्रेष्ठोंके सगीप आई, जिसको मनुष्य
 अंशरहित एक और इन्द्रानुसार रूप धारण करने वाली कहते
 हैं ११ जिसके संकेत और सगणके अनुसार सुरेश्वर (कृष्ण)
 उत्पन्न हुए थे और जिसके कारण कृष्णने कंसके और उसके
 अनुपायियोंको मार डाला था ॥ १२ ॥ वह कन्या वृष्णियोंके घर
 में सत्कार पाती हुई वासुदेवकी आज्ञासे पुत्री समान पाली जाती
 हुई बढ़ने लगी थी ॥ १३ ॥ मनुष्य जिस दुराधर्ष गोकन्याके
 वासुदेवकी रत्ना करने वाली पूर्ण अंशसे पृथ्वीमें उत्पन्न हुई
 बताने हैं ॥ १४ ॥ जिसकी सब मनस्वी यादव पूजा करते हैं और

तां च तत्रोपसंगम्य मियामिव सखीं स्वसाम् । दक्षिणेन करा-
 ग्रेण परिजग्राह माधवः ॥ १६ ॥ तथैव रामोऽतिबलः संपरिवृज्य
 भाविनीम् । मूढ्युपाग्राथ सव्येन प्रतिजग्राह पाणिना ॥ १७ ॥
 ददृशुस्ताः स्त्रियो मध्ये भगिनीं रामकृष्णयोः । स्वमपन्नव्यग्र-
 करां श्रियं पद्मालयामिव ॥ १८ ॥ तथान्ततमदावृष्ट्या पुष्पैश्च
 विविधैः शुभैः । अचकीर्य च लाजैस्ताः स्त्रियो जग्मुर्यथालयम् १९
 ततस्ते यादवाः सर्वे पूजयन्तो जनार्दनम् । उपोपत्रिविशुः प्रीताः
 प्रशंसन्तोऽद्भुतं कृतम् ॥ २० ॥ पूज्यमानो महाबाहुः पौराणां
 रतिवर्धनः । विरराज महाकीर्तिदेवैरिव स तैः सदा ॥ २१ ॥ समा-
 सीनेषु सर्वेषु यादवेषु जनार्दनम् । निगोगात् त्रिदशेंद्रस्य नारदो-
 ऽभ्यागमत् सभाम् ॥ २२ ॥ सोऽथ सम्पूजितः पूज्यः शूरैस्तेर्यदु-

जिसने दिव्य पुरुष कृष्णकी देवताकी समान रत्नाकी है ॥ १५ ॥
 माधवने उस अपनी प्रिय सखीकी समान बहनसे मिल कर उस
 को दाहिने हाथसे पकड़ लिया ॥ १६ ॥ इसी प्रकार अतिबल-
 बान् रामने भी उस पूजनीयासे मिल कर उसके शिरको सूँघ
 उसको बाये हाथसे पकड़ लिया ॥ १७ ॥ उस समय स्त्रियोंने राम
 और कृष्णके बीचमें उनकी बहिनको सुवर्ण और पद्मसे व्यग्र हाथ
 वाली पद्मालया लक्ष्मीकी समान देखा १८ तदनन्तर वे स्त्रियें
 अनेक प्रकारके पुष्प और शुभ अन्तत उन कर छिड़क कर तथा
 उन पर खीलोंकी बखेर कर अपने २ घरोंको चली गईं ॥ १९ ॥
 तदनन्तर वे सब यादव जनार्दनकी पूजा करते हुए और उनके
 अद्भुत कर्मकी प्रशंशा करते हुए प्रसन्न होकर बैठ गए ॥ २० ॥
 नगरनिवासियोंके आनन्दको बढ़ाने वाले महाकीर्ति श्रीकृष्ण उन
 सबसे पूजा पाकर देवता-स्वरूप यादवोंसे शोभा पाने लगे २१
 सब यादवोंके बैठे जाने पर देवनाओंके इन्द्रकी आज्ञासे नारदजी
 सभामें जनार्दनके पास आये ॥ २२ ॥ उस समय शूर यादवोंने

पुत्राः । करं संस्पृश्य स हरेर्विवेश परमासने ॥ २३ ॥ सुखोप-
विष्टस्तान् वृष्णीनुपविष्टानुवाच ह । संपाप्तं शक्रवचनाज्जानीध्वं
मां नरर्षभाः ॥ २४ ॥ शृणुध्वं राजशार्दूलाः कृष्णस्यास्य परा-
क्रमम् । यानि कर्माणि कृतवान् वाज्यात् प्रभृति केशवः ॥ २५ ॥
उग्रसेनसुतः कंसः सर्वान्निर्मथ्य यादवान् । राज्यं जग्राह दुर्बुद्धि-
र्वध्वा पितरगाहुकम् ॥ २६ ॥ सगाश्रित्य जरासन्धं रवसुरं कुल-
पांसनः । भोजवृष्णान्यकान् सर्वानवमन्यत दुर्मतिः ॥ २७ ॥ ज्ञाति-
कार्यं चिकीर्षुस्तु वसुदेवः प्रतापवान् । उग्रसेनस्य रत्नार्थं स्वपुत्रं
पर्यरक्षत ॥ २८ ॥ स गोपैः सह धर्मात्मा मथुरोपवने स्थितः ।
अत्यद्भुतानि कर्माणि श्रूयते महदद्भुतम् । उत्तानेन शयानेन शक-

उनकी पूजा की, तदनन्तर पूजनीय नारद श्रीकृष्णके हाथको
पकड़ कर श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए ॥ २३ ॥ सुखपूर्वक बैठे हुए
नारदजीने बैठे हुए वृष्णिवंशियोंसे कहा, कि-हे नरर्षभों ! तुम
मुझे इन्द्रके वचनसे आया हुआ जानो ॥ २४ ॥ हे राजशार्दूलों !
केशवने बालरूपसे जो काण किये हैं, कृष्णके उन पराक्रमोंके
तुम सुनो ॥ २५ ॥ उग्रसेनके पुत्र दुर्बुद्धि कंसने सब यादवोंका
तिरस्कार कर अपने पिता आहुकको बंध कर राज्य छीन लिया
था ॥ २६ ॥ वह कुलफलक दुर्मति अपने रवसुर जरासंधका
आश्रय ले सारे भोज वृष्णि और अधकोंका तिरस्कार करने
लगा था ॥ २७ ॥ उस समय जातिका कार्य करना चाहने
वाले प्रतापी वसुदेवने उग्रसेनकी रक्षा करनेके लिए अपने
पुत्रकी रक्षा की थी ॥ २८ ॥ उस समय धर्मात्मा मधुसूदनने
गोपोंके साथ मथुरामें रहकर अतिअद्भुत कर्म किये थे ॥ २९ ॥
उग्रसेन इस अद्भुत बातको प्रत्यक्ष सुनते हैं, कि-शकटका नाश
करनेकी चेष्टा करनेवाले श्रीकृष्णने उत्तान (ऊपरको पैर करके)
शयन कर पत्नीका वेप धारण करने वाली भर्गकर राज्ञसी

दान्तरचारिणा । राक्षसी निहता रौद्रा शकुनीत्रेपचारिणी । ३० ।
 पुत्रना नाम घोरा सा महाकाया महाबला । विपदिग्रं स्तनं रौद्रं
 मयच्छन्ती जनार्दने ॥ ३१ ॥ ददृशुर्निहता तां ते राक्षसीं वन-
 गोचराः । पुनर्जातोऽप्यपित्पाहुरुक्तस्तस्मादधोत्तमः ॥ ३२ ॥ अत्य-
 द्युनमिदं चासीद्यच्छिशुः पुरुषोत्तमः । पादागुष्ठेन शकटं क्रीड-
 मानो व्यलौढयत् ॥ ३३ ॥ दाम्ना चोलखले वद्धो विमकुर्वन्
 कुमारकम् । वमज्जार्जुनवृत्तौ द्वौ खयातो दामोदरस्तदा ॥ ३४ ॥
 कालिपशु महानागो दुराधर्षो महाबलः । क्रीडतां वासुदेवेन
 निर्जितो यमुनाहरे ॥ ३५ ॥ अक्रूरस्य सपत्नं च यन्नागभवने
 विभुः । पूजयमानं तदा नागैर्दिव्यं चपुरधारयत् ॥ ३६ ॥ शीत-
 वातादितो गाश्वं दृष्ट्वा कृष्णेन धीमता । धृतो गोवर्धनः शैलः

सीको गार डाला था ३० उस अर्ककर-राक्षसीका नाम पुत्रना
 था उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसमें बल भी बहुत था,
 वह अपना विपसे सना हुआ स्तन जनार्दनको पिला रही थी ३१
 वनमें चलने वालोंने जब (उस) राक्षसीको मरा हुआ देखा,
 तब वे कहने लगे, कि-यह अधोत्तम फिर उत्पन्न हुए हैं ३२
 यह भी अति अद्भुत बात हुई थी कि-इन पुरुषोत्तमने बालक होने
 पर भी क्रीड़ा करते-२ पीरके अंगूठेसे गौड़ीको तोड़ डाला था ३३
 इन्होंने रस्सीसे उल्लूखलमें घँपने पर अपनी कुमारताका (तिरस्कार)
 कर अर्जुनके दो पेड़ोंको तोड़ डाला था, इससे वे दामोदर नाम
 से मसिद्ध हुए हैं ३४ इन खेलते हुए वासुदेवने यमुना हृदमें दुरा-
 धर्ष महाबली महानाग कालिय सर्पका दमन किया था ३५ इन
 विभुने अक्रूरके सामने नागभवनमें सर्पोंसे पूजा पाते हुए दिव्य
 शरीर धारण किया था ३६ गौश्रीको शीत और वायुसे पीड़ा
 पाती हुई देख कर इन महात्मा बुद्धिमान कृष्णने गोवर्धन पर्वत
 को सात रात तक उठाया था ३७ बालक वासुदेवने (यह सब

सप्तरात्रं महात्मना ॥ ३७ ॥ शिशुना वासुदेवेन गवां त्राणार्थ-
मिच्छताम् ॥ ३८ ॥ तथोन्नदुष्टोतिबलो महाकायो नरान्तकृत् ।
गोपतिर्वासुदेवेन हनोऽरिष्टो महासुरः ॥ ३९ ॥ धेनुकः स महा-
कायः दानवः सुमहाबलः । निहतो वासुदेवेन गवां त्राणाय दुर्मतिः
सुनामानमभिन्नघ्नः सर्वसैन्यपुरस्कृतम् । वृकैर्विद्रावपागास गृहीतं
समुपस्थितम् ॥ ४१ ॥ रौहिणेयेन संगम्य बने विचरता पुनः ।
गोपत्रेषधरेणैव कंसस्य भयमाहितम् ॥४२॥ तथा व्रजगतः शौरि-
र्दृष्ट्वा युद्धबलं हयम् । मग्रहं भोजराजस्य जघान पुरुषोत्तमः ४३
प्रलम्बश्च।महान्नाहो रौहिणेयेन धीमता । दानवो मुष्टिर्नैकेन कंसा-
मात्यो निपातितः ॥४४॥ एतौ हि वसुदेवस्य पुत्रौ सुरसुतोपमौ।
ववृधाते महावीर्यौ ब्रह्मगार्ग्येण संस्कृतौ ॥ ४५ ॥ जन्मप्रभृति
चाप्येतौ गार्ग्येण परमर्षिणा।याथातथ्येन विज्ञाप्य संस्कारमति-

काम) रक्षा चाहने वाली गौओंके लिए (किया था) ३८ :सी
प्रकार वासुदेवने बड़े भारी शरीरवाले, मनुष्योंका अन्त करनेवाले
गोपति दुष्ट बल अरिष्ट नामक महाराजसको मार डाला था और
इन वासुदेवने गौओंकी रक्षा करनेके लिये महाबलीमहाकाय धेनुक
नामक राजसको मार डाला था ४० इन्होंने सारी सेनाको लेकर
खड़े हुए अभिन्ननाशन सुनामाको भेड़ियोंसे भगादिया था ४१
फिर इन्होंने गोपवेशमें बलरागके साथ वनमें भ्रमण कर कंससे
भयभीत किया था ४२ और इन शौरि पुरुषोत्तमने कंसके सहायक
घोड़ेसे देखकर उसको मार डाला था ४३ हे महाभुज ! बुद्धि-
मान् जनराजने कंसके मन्त्री प्रलम्ब दानवको एक मुट्ठीका घूँसा
मार कर मार डाला था ४४ वसुदेवके यह महावीर्य देवपुत्रोंकी
समान पुत्र घ्राहण गार्ग्यके संस्कार करने पर बढ़ने लगे थे ४५
परमर्षि गार्ग्यने इन दोनोंके जातकर्म आदि संस्कार, यथार्थरीतिसे
जानकर किये थे ४६ जब वे दोनों नरश्रेष्ठ यौवनसुखमें वर्तमान

पादितौ ॥ ४६ ॥ यदा त्विमां नरश्रेष्ठी स्थितौ यौवनसम्पुत्रे ।
 सिंहशावाविद्योदीर्णौ मत्तौ हेमवतौ यथा ॥ ४७ ॥ ततो मनांसि
 गोपीनां हरमाणौ महाबलौ । आस्तां गोष्ठवरौ वीरौ देवपुत्रोप-
 मद्युती ॥ ४८ ॥ एतौ जये वा युद्धे वा क्रीडासु विविधासु च ।
 नन्दगोपस्य गोपाला न शोकुः प्रसमीलुतम् ॥ ४९ ॥ न्यूढोरस्की
 महाबाहू शालस्कन्धाविवोद्गतौ । श्रुत्वाऽसौ व्यथितः कंसो मंत्रिभि-
 सहितोऽभवत् ॥ ५० ॥ नाशकश्च यदा कंसो गृहीतुं बलकेशवौ
 निजग्राह ततः क्रोधाद्बभूवुर्देवो सवान्धनम् ॥ ५१ ॥ सहोग्रसेनेन
 तदा चौरवद्वादयन्धनम् । कालं महान्तमनयत् कृच्छ्रमानकदुन्दुभिः
 कंसस्तु पितरं बद्ध्वा शूरसेनान् शशास ह । जरासन्धं समाश्रित्य
 तथैवाह्वृतिभीष्मकौ ॥ ५२ ॥ कस्यचित्त्वथ कालस्य मथुरायां
 महोत्सवम् । पिनाकिनं समुद्दिश्य चक्रे कंसो नराधिपः ॥ ५४ ॥

होकर सिंहके शावकों (बच्चों) की समान और हिमाचलके
 मत्त हाथियोंकी समान बड़े होगए ४७ तब ये देवपुत्रोंकी समान
 समान कान्तिवाले गोष्ठवर महाबली गोपियोंके मनको हरने
 लगे ४८ नन्दगोपके गोपाल जयमें युद्धमें और अनेक प्रकारकी
 क्रीडाओंमें इनकी ओर देख भी नहीं सकते थे ॥ ४९ ॥ भरी हुई
 छाती वाले महाशुन और शालके लट्टेकी समान ऊँचे इन दोनों
 को सुन कर कसबयथित होगया और उसने मन्त्रियोंसे मन्त्रणा
 की ५० जब कंस बलदेव और कृष्णको न पकड़सका तब उसने
 क्रोधमें भर कर बभूवुदेवको और उनके बान्धवोंको पकड़ लिया ५१
 उसने उग्रसेनको भी चारकी समान दृढ़तासे बाँध लिपाउस समय
 आनकदुन्दुभि-बभूवुदेवने कष्टके साथ बहुतसा समय बिताया
 था ५२ कंस भी भीष्मक आह्वृति और जरासन्धका आश्रय ले
 अगनेपिता कंसको बाँधकर शूरसेन देशका शासन करनेलगा ५३
 कुछ समय बीतने पर राजा कंसने महादेवजीके निमित्त मथुरामें

(८६४) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [एकाधिकशततमं

तत्र मत्स्यः समाजमूर्त्तानादेशया विशाम्पते । नर्तनां गायनाश्चैव
कुशला नृत्यकर्मसु ॥ ५५ ॥ ततः कंसो महातेजा रंगवाटं महा-
धनम् । कुशलैः कारयागासं शिल्पिभिः साधुनिष्ठितैः ॥ ५६ ॥
तत्र मञ्चसदस्त्राणि पौरजानपदैर्जनैः । समाकीर्णानि । दृश्यन्ते
ज्योतींषि गगने यथा ॥ ५७ ॥ भोजराजः श्रिया जुष्टं रङ्गवाटं
गहर्द्धिमत् । आरुरोह ततः कंसो विमानं सुकृती यथा ॥ ५८ ॥
रङ्गवाटे गजं मत्तं प्रभूनायुधकल्पितम् । शूरैरधिष्ठितः कंसः स्था-
पयागास वीर्यवान् ॥ ५९ ॥ यदा हि स महातेजा रामकृष्णौ
समागतौ । शुश्राव पुरुषव्याघ्रौ सूर्याचन्द्रमसाविव ॥ ६० ॥ तदा-
मभृति यत्नोऽभूदक्षां प्रति नैराधिप । न च शिरये सुखं रात्रौ
रामकृष्णौ विविन्तयन् ॥ ६१ ॥ श्रुत्वा तु रागः कृष्णश्च तं

महोत्सव क्रिया ॥ ५४ ॥ हे विशाम्पते ! तहाँ पर अनेक देशोंके
गन्त आए थे और नृत्यकर्ममें कुशल नर्तक और गायक भी तहाँ
आए थे ॥ ५५ ॥ तदनन्तर महातेजस्वी कंसने बड़ा धन लगवाकर
चतुर शिल्पियोंसे रंगवाट बनवाया था ५६ जिस प्रकार आकाश
में नक्षत्र दीखते हैं, इसी प्रकार तहाँ पर सुरवासी और ग्रामवासी
मनुष्योंसे घिरे हुए सदस्यों मञ्च दीखते थे ५७ जिस प्रकार पुण्यात्मा
पुरुष विमान पर चढ़ता है, इसी प्रकार कंस भोजराजकी लक्ष्मी
से युक्त ऋद्धिसम्पन्न रंगवाटमें कंस आया ५८ शूरोंसे सेवित
वीर्यवान् कंसने अनेक प्रकारके आयुधोंसे सजाये हुए गदमत्त
हाथीको रंगवाटमें खड़ा कर दिया था ५९ महातेजस्वी कंसने
जिस समय सूर्य और चन्द्रमाकी समान पुरुषव्याघ्र राम और
कृष्णको, आये हुए सुनो ६० हे राजन् ! तबसे वह अपनी रक्षा
का यत्न करने लगा, वह राग और कृष्णका विचार कर रात्रि
में सुखपूर्वक सो भी न सका ६१ राम और कृष्ण उस उच्चग
समाजमें सुन कर इस समाजमें, गोष्ठमें घुसने वाले वीर शार्दूलों

सगानमनुत्तमम् । उभौ त्रिविशनुर्वीरौ शार्दूलौ गोव्रजं यथा ६२
 ततः प्रवेशे संरुद्धौ रत्निभिः पुरुषर्षभौ । हत्वा कुवलयपीडं ससा-
 दिनगरिन्दमौ । अत्रमृद्य दुराधर्षौ रङ्गं त्रिविशनुस्तदा ॥ ६३ ॥
 चाणूरान्ध्रौ विनिष्पद्य केशवेन बलेन च । शौग्रसेनिः सुदुष्टात्मा
 सानुजो विनिपातितः ॥ ६४ ॥ यत्कृतं गदुसिंहेन देवैरपि सुदु-
 ष्करम् । कर्म तत्केशवादन्यः कर्तुर्गर्हात कः पुमान् । ६५ ॥ यदि
 नाधिगतं पूर्वं : मल्हादवलिशम्बरैः । तदिदं पापितं वित्तं शौरिणा
 भवतां कृते ६६ एतेन मृगाक्रम्य दैत्यं पञ्चजनं तथा । निष्काम्य
 शैलसंघातान्निमुन्दः सगणो हतः ॥ ६७ ॥ नरकरच हतो भौमः
 कुण्डले चाहते शुभे । प्राप्तं च दिवि देवेषु केशवेन महद्यशः ६८
 वीनशोकभयावाधा कृष्णवाचुवलाश्रयाः । यजध्वं त्रिविधैर्यज्ञै-

की सगान घुसने लगे ॥ ६२ ॥ प्रवेश करते समय रत्नकौने उन
 को रोका तब इन दोनोंने कुवलयपीडको और उसके सवागको
 मार डाला, तदनन्तर ये दोनों दुराधर्ष अरिदगन पुरुषर्षभ रङ्ग-
 वाटगें पहुँच गए थे ॥ ६३ ॥ तदनन्तर केशवने और बलदेवने
 चाणूर और अन्ध्रकको मार कर अग्रसेनके दुष्टात्मा पुत्र कसको
 और उसके भाइयोंको भी मार गिराया ॥ ६४ ॥ यदुसिंह केशव
 ने जो दुष्कर कर्म किया है उसको केशवके अतिरिक्त और कौन
 पुरुष कर सकता है ॥ ६५ ॥ जिस धनको पहिले मल्हाद वलि
 और शम्बर भी नहीं पासके थे उस धनको कृष्ण आश्रके लिए
 लेआये हैं ॥ ६६ ॥ इन्होंने मृग और पञ्चजन दैत्यको दना कर
 तहोंसे हट पर्वतके शिखरकी सगान आभा वाले निमुन्दको और
 उसके गणोंको मार डाला था ॥ ६७ ॥ इन्होंने भूमिपुत्र नरका-
 सुरको मार डाला था और (अदितिके) शुभकुण्डल लौटा लिये
 थे इस प्रकार इन वेशवने स्वर्गमें देवताओंके बीचमें भी बड़ा यश
 पाया है ॥ ६८ ॥ हे यादवों ! कृष्णके भुजबलका आश्रय पाने

यादवा वीनगत्तराः ॥ ६६ ॥ देवानां सुमहत् कार्यं कृतं कृष्णेन
प्रीयता । प्रियमावेदयाम्येष भवतां भद्रमस्तु वः ॥ ७० ॥ यदिष्टं
वा यदुश्रेष्ठाः कर्तास्मि तदतन्द्रिगः।भवतामस्मि युयं च मम युष्मा-
स्वहं स्थितः ॥७१॥ इति सम्बोधयन् कृष्णपद्मवीत्पाकशासनः ।
स मां गच्छीत् सुरश्रेष्ठ प्रीनस्तुष्टास्तथा वयम् ॥ ७२ ॥ यत्र धीः
श्रीः स्थिता तत्र यत्र धीस्तत्र सन्नतिः । सन्नतिर्धीस्तथा श्रीश्च
नित्यं कृष्णे महात्मनि ॥ ७३ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि नारदवाक्यं
नामैकोत्तरशततमोऽध्यायः ॥१०१॥

नारद उवाच । सादिता मौरवाः पाशा निमुन्दनरकौ हतौ ।
कृतः क्षेम्यः पुनः पन्था पुरं प्राञ्ज्योतिष प्रति ॥ १ ॥ शौरिणा

के कारण तुम्हारे ऊपर शोक और भय नहीं पड़ सकता अतः
हे गादर्वा ! तुम वीतराग हाकन अनेक प्रकारके यज्ञोंको करो ६६
बुद्धिमान कृष्णने देवताओंका बड़ा भारी कार्य किया, यह प्रिय
ममानार मैंने तुम्हें सुना दिया तुम्हारा कल्याण हो ॥ ७० ॥
पाकशासन इन्द्रो कृष्णको सम्बोधित (प्रसन्न) करते हुए
कहा है, कि-हे गादर्वा ! तुमको जो कार्य इष्ट होगा उस सबको
मैं अनन्द्रित शक्ति कर्षणा तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुममें
ही स्थित हूँ, प्रसन्न हुए सुरश्रेष्ठ इन्द्रने मुझे (यह कह कर)
यहाँ भेजा था, और हम भी आपसे प्रसन्न हुए हैं ७१-७२
जहाँ पर बुद्धि होती है, वहाँ लक्ष्मी रहती है और जहाँ लक्ष्मी
होती है वहाँ सन्नति रहती है सन्नति बुद्धि और लक्ष्मी महात्मा
कृष्णमें सर्वदा रहती है ७३ एक सी एक ही अध्याय समाप्त १०१

नारदजीने कहा; कि-इन्होंने मुझे पाशोंको नष्ट कर दिया
है और निमुन्दापुर तथा नरकामृत्को गहर डाला है और प्राञ्ज्यो-
तिषपुरका मार्ग पहिनेकी समान फिर निष्कण्टक कर दिया है ?

पृथिवीपालास्यःसिताः सर्द्धिनो रणे । धनुषश्च निनादेन पाञ्च-
 जन्यस्वनेन च ॥२॥ मेघप्ररूपैरथानीकैर्दान्तिष्ठात्यैः सुरक्षितम् ।
 रुक्मिणं युधि निर्जित्य महाबलवराक्रमम् । रुक्मिणीपानहाराशु
 केशवो वृष्णिपुङ्गवः ॥३॥ ततः पर्जन्यघोषेण रथेनादित्यवर्चसा ।
 अवाप्य महिषीं भोज्यां शंखचक्रगदासिभृत् जारुथ्यादृतिः काथः
 शिशुपालश्च निर्जितः । वक्रश्च सह सैन्येन शनधन्वाथ निर्जितः ॥
 इन्द्रद्युम्नो हतः कोपाद्यंवनश्च कशेरुगान् । हतः सौमपतिः श्रीमान्
 शान्वश्च दृढधन्वना ॥ ६ ॥ पर्वतानां सहस्रं च चक्रेण पुरुषो-
 चमः । विहीर्य पुण्डरीकाक्षो द्युमत्सेनं व्यपोषयत् ॥ ७ ॥ महेंद्र-
 शिखरे चैव निमेगान्तरचारिणो । जघान पुरुषव्याघ्रौ रावण
 स्यागिभ्ररौ ॥ ८ ॥ इरावत्यां महाभोजावग्निमूर्गसगौ युधि ।

इन कृष्णने रणमें स्पर्धा करने वाले राजाओंको धनुषके शब्दसे
 और पाञ्चजन्यके स्वरसे डरा दिया है ॥ २ ॥ वृष्णिपुङ्गव केशव
 मेघों की समान दन्तिष्ठी रथसेनाओंसे सुरक्षित बड़ी भारी सेना
 वाले पराक्रमी रुक्मीको युद्धमें जीत कर रुक्मिणीको भीष्म ही ले
 आये हैं । ३ शंख चक्र और गदा तथा तलवारको धारण करने
 वाले कृष्णने भोजवशी रानीको पाकर सूर्यकी समान तेजस्वी और
 मेघकी समान शब्द करनेवाले रथसे जारुथीमें आदृति काथ और
 शिशुपालको जीत लिया था और सेनासहित वक्र और शनधन्वा
 को भी जीत लिया था ॥३॥५॥ इन्होंने कोपमें भर कर इन्द्रद्युम्न
 ग्वन और कशेरुगान्को भी मार डाला था इसी प्रकार इन दृढ-
 धनुषधारीने सौमके स्थायी श्रीमान् शान्वको मार डाला था ६
 इन पुरुषोत्तम पुण्डरीकाक्षने सहस्रों पर्वतोंको चक्रमे विहीर्य कर
 द्युमत्सेनको मसल डाला था ॥ ७ ॥ इन शार्ङ्गधनुषधारी, कृष्ण
 ने महेंद्रपर्वत सरीखी इरावती नगरीमें रावणके आसपास फिरने
 वाले युद्धमें अग्नि और सूर्यकी समान भोजवशिषीमें उदार पुरुष

गोपतिस्तालकेतुश्च निहृता शार्ङ्गधन्वना ॥ ९ ॥ अन्नप्रपातने चैव
 हिम्भो हंसश्च दानवी । उभौ तावपि कृष्णेन सानुगौ विनि-
 पातिनौ ॥ १० ॥ दग्धा वाराणसी चैव केशवेन महात्मना । स-
 राष्ट्रः सानुबन्धश्च काशीनामधिपो हतः ॥ ११ ॥ विजित्य च
 यमं संख्ये शरैः सन्नतपर्वभिः । अथेन्द्रसेनिरानीतः कृष्णेना-
 ऋतकर्मणा ॥ १२ ॥ सहितः सर्वयादोभिः समरेषु महाबलः । प्राप्य
 लाहितकूटं च कृष्णेन वरुणो जितः ॥ १३ ॥ महेन्द्रभवने यातो
 देवैर्गुप्तो महात्मभिः । अचिन्तयित्वा देवेन्द्रं परिजातद्रुगो हतः १४
 पाण्डव्यं पाण्डुं कलिङ्गं च मात्स्यं चैव जनार्दनः । जघान सहि-
 तान् सनान् वङ्गराजं तथैव च ॥ १५ ॥ एष चैव शतं हत्वा रणे
 राज्ञा महात्मनाम् । गान्धारीमात्रहृद्दीरो महिषीं मियदर्शनाम् १६

व्याघ्र गोपति और तालकेतुको मार डाला है ॥ ८ ॥ ९ ॥ तथा
 इन कृष्णने आँख मीचने मात्रके सगगमें हंस और हिम्भ नाम वाले
 दानवीको उनके अनुवर्गों-सहित मार डाला था ॥ १० ॥ और
 इन महात्मा केशवने वाराणसीको भस्म कर दिया था और रा
 तथा उसकी मापत्री-सहित काशियोंके स्वामीको मार डाला था
 और इन अद्भुत कर्म करने वाले कृष्णने यमको भी युद्धमें नम
 हुई गाँठ वाले बाणोंसे जीत कर इन्द्रसेनाके पुत्रको ला दिया
 था ॥ ११ ॥ १२ ॥ और कृष्णने लोहित-कूटमें जाकर जलचर
 जीवों सहित महाबली वरुणको भी जीत लिया था ॥ १३ ॥ और
 इन्होंने इन्द्रके भवनमें जाकर महात्मा देवनाओंसे रक्षित परिजात
 वृत्तको इन्द्रकी भी परवाह न कर ले लिया था ॥ १४ ॥ जना-
 र्दनने पाण्डव्य पाण्डु कलिङ्ग और मात्स्यराज इन सब एकत्रित
 घुड़ोंको और वंगराजको भी मार डाला था ॥ १५ ॥ एक सौ
 महात्मा राजाओंको युद्धमें मार कर ये वीर मियदर्शना रानी
 गाँधारीको लाये हैं ॥ १६ ॥ इन विष्ट मधुसूदनने कुन्तीके सन्मुख

तथा गण्डीवधन्वानं क्रीडन्तं मधुमूदनः॥जिगाय भरतश्रेष्ठं कुंत्याः
 ममुखतो विभुः ॥ १७ ॥द्रोण द्रौणि कृतं कर्ण भीष्मं चैव सुयो-
 धनम् । चक्रानुगर्नीः प्रहरणे जिगाय पुरुषोत्तमः ॥१८॥ वभ्रोश्च
 प्रियमन्त्रिच्छन शखचक्रगदासिभृत् । सोवीरराजस्य सुगं गसह्य
 हनवानप्रभुः ॥ १९ ॥ पर्यन्तां पृथिवीं, कृन्नां सारथां सरथकुञ्ज-
 राम् । वेणुदारिकृते, यत्नाज्जिगाय पुरुषोत्तमः ॥२०॥ अवाप्य
 तपसा नीर्यं बलमोजश्च माधवः । पूर्वदेहे जहारायं बलेस्त्रिभुवनं
 हरिः ॥२१॥ वज्राशनिगदाखड्गैस्त्रासगद्भिश्च दानवीः । यस्य
 नाधिगतो मृत्युः पुरं प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ २२ ॥ अभिभूतश्च
 कृष्णेन सगणः सुगहाबलः । बलेः पुत्रो महावीर्यो बाणो द्रविण-
 वत्तरः ॥२३॥पीठ तथा महाबाहुः कसामात्यं जनार्दनः । पैठिक
 चासिलोमानं निजघान महाबलः ॥ २४ ॥ जृम्भमैरावणं चापि

क्रीडा करते हुए भरतश्रेष्ठ अर्जुनके द्वारा चक्रसे चलने वाले यान
 (रथों) के संग्राममें द्रोण अश्वत्थामा कृतवर्मा कर्ण भीष्म और
 दुर्षेधनको भी जीत लिया है ॥ १७॥१८ ॥ वभ्रुका प्रिय चाह
 कर इन, शख चक्र गदा और तलवार धारण करने वाले मधुने
 सोवीर-राजकी पुत्रीका बलपूर्वक हरण किया था, ॥ १९ ॥ इन
 पुरुषोत्तमने वेणुदारिके कारण यत्न करके हाथी रथ और घोड़ों
 से व्याप्त सारी भूमिको जीत लिया था ॥ २० ॥ इन मधुवशी
 हरिने पूर्व जन्ममें तपसे वीर्य बल और ओजको पाकर बलि दैत्य
 से तीनों लोकोंको छीन लिया है ॥ २१ ॥ पहिले प्राग्ज्योतिष-
 पुरमें दानव वज्र अशनि गदा और खड्गमें भी मार कर जिसका
 वध न कर सके थे उस बलिके पुत्र महावीर्य महाधनवान्
 बाणासुरका और उसके अनुचरोंका भी वासुदेवने तिर-कार
 किया था २३ और इन महाबली वासु बने कसके मंत्री महाधुन
 पीठको पैठिकको और असिलोमाने भी मार डाला था और इन

विरूपं च महायशाः । जघान पुष्पव्याघ्रो दैत्य मानुषरूपिणाम् २५
तथा नागपतिं तोये कालीयं च महौजसम् । निर्जित्य पुण्डरी-
फान्तः प्रेषयामास सागरम् ॥ २६ ॥ संजीवयागास मूढं पुत्रं सादी-
पनेस्तथा । निर्जित्य पुरुषव्याघ्रो यमं वैवस्वतं हरिः ॥ २७ ॥
एवमेष महाबाहुः शास्त्रा तेषां दुरात्मनाम् । देवांश्च ब्राह्मणा-
श्चैव ये द्विपन्ति सदा नृप ॥ २८ ॥ निहत्य नरकं भौममाहृत्य
मणिकुण्डले । देवमातुर्ददौ चैव प्रीत्यर्थं वज्रपाणिनः ॥ २९ ॥
एवं च देवदैत्यानां सुराणां च महायशाः । भयाभयकरः कृष्णः
सर्वलोचकरो विभुः ॥ ३० ॥ संस्थाप्य धर्मान् मर्त्येषु यज्ञैरिष्ट्वाप्त-
दक्षिणैः । कृत्वा देवाथमपितं संख्यानं मनिपत्स्यते ॥ ३१ ॥ कृष्णो
भोगवर्ती रम्यामृषिकान्ता महायशाः । द्वारकागात्गसात् कृत्वा
समुद्रं गमयिष्यति ॥ ३२ ॥ बहुरत्नसमाकीर्णा चैत्ययूषशतांकि-
महायस्वी पुरुषव्याघ्रने जम्भासुरको ऐरावतको विरूपको और
मनुष्यका रूप धारण करनेवाले राक्षसको भी मार डाला था २५
और इन पुण्डरीकान्तने जलमें बड़े भारी सर्प कालिय नागको
जीत कर उसे समुद्रमें भेज दिया है २६ इन पुरुषव्याघ्र हरिने
यमराक्षको जीत कर साज्जीविके परे हुए पुत्रको जीवित कर
दिया था २७ हे नृप ! इस प्रकार देवता और ब्राह्मणोंसे द्वेष
करने वाले दुरात्माओंको यह महाभुज सदा दण्ड देत रहने
हैं २८ इन्होंने वज्रपाणि इन्द्रकी प्रीतिके कारण भूमिके पुत्र नरका-
सुरको मार कर मणिजटिन कुण्डल लाकर देवमाता अदितिसे
देष्टृपुत्र २९ सब लोकोंको रचने वाले महायशस्वी विभु कृष्ण
इस प्रकार देवता दैत्य और अमुरोंको भगनथा अभय दिया
करते हैं ३० यह वामुदेव मनुष्योंमें धर्मको स्थापित करके और
पूर्ण दक्षिणा वाले यज्ञ करके देवताओंका बड़ा भारी कर्म कर
नीतृपुत्रने। चले जायेंगे ३१ महायशस्वी वामुदेव अग्निगोत्री प्यारी

ताम् । द्वारकां वरुणावासं प्रवेक्ष्यति सकाननाम् ॥ ३२ ॥ तां
 सूर्यसदनमग्न्यां गतज्ञः शार्ङ्गधन्वनः । विसृष्टां वासुदेवेन सागरः
 स्नाययिष्यति ॥ ३४ ॥ सुरासुरमनुष्येषु नासीन्न भविता क्वचित् ।
 य इमापावसेत् कश्चिदग्नौ वै मधुसूदनात् ॥ ३५ ॥ एवमेव दशा
 र्हाणां विधान विधिमुत्तमम् । विष्णुर्नारायणः सोमः सूर्यश्च
 भविता स्वयम् ॥ ३६ ॥ अपमेयस्ताचित्यश्च यथाकामचरो वशी ।
 मोदत्येष सदा भूतैर्बालः क्रीडनकैरिव ॥ ३७ ॥ न प्रमातुं महा
 बाहुः शक्योऽयं मधुसूदनः । परं ह्यपरमेतस्माद्विश्वरूपान्न विद्यते
 श्रुदोगमेव शनशस्तथा शतमहस्रशः । अन्तो हि कर्मणामस्य दृष्ट-
 पूर्वो न केनचित् ॥ ३९ ॥ एवमेतानि कर्माणि शिशुमध्यगतस्तदा ।
 कृतवान् पुण्डरीकोत्तः संकर्षणसहायवान् ॥ ४० ॥ इत्युवाच

भोगवती द्वारकाके अपनी समान करके समुद्रमें चले जावेंगे ३२
 यह वासुदेव अनेक रत्नोंसे घिरी हुई चैत्यके सैंकड़ों यूपोंसे
 विन्धित, बगीचों वाली द्वारकाके वरुणके आवासस्थान समुद्रमें
 डुबा लेंगे ॥ ३३ ॥ वासुदेवके मतके जाननेवाला समुद्र वासुदेव
 की छोड़ी हुई सूर्यके भवनकी समान द्वारकाके डुबा देगा ३४
 मधुसूदनके अतिरिक्त देवता और देत्योंमें भी ऐसा कोई न हुआ
 और न होगा जो इस पुरीमें बस सके ३५ दशार्होंके लिए उत्तम
 विधानका विधान करके यह विष्णु अपने आपही नारायण, सोम
 और सूर्य हो जावेंगे ३६ जैसे बालक खिलौनोंमें खेलता है इसी
 प्रकार यह इच्छानुसार विचरण करने वाले अपमेय अचिन्त्यात्मा
 वशी वासुदेव प्राणियोंसे सदा क्रीड़ा करते रहते हैं ३७ इन महा-
 भुग मधुसूदनका पार पाना कठिन है, इन विश्वरूपसे पर और
 अपर कुछ नहीं है ३८ इनको इस प्रकार सैंकड़ों और लाखों
 बार सुना है, परन्तु इनके कर्मोंका पार किसीने नहीं पाया है ३९
 इस प्रकार बालकोंके बीचमें इन वासुदेवने बलदेवजीकी सहायता

पुरा व्यामस्तपोवीर्येण चक्षुषामहायोगी महाबुद्धिः सर्वगत्यन्त-
दर्शिवान् ॥ ४१ ॥ वैशम्पायन उवाच । इति सप्ततूय गोविन्दं
महेन्द्रवननान्मुनिः । यदुभिः पूजितः सर्वैर्नारदस्त्रिदिवं ययोऽ४२
ततस्तद्वसु गोविन्दो दिदेशान्धकवृष्णिषु । यथार्हं पुण्डरीकान्तं
विधिवन्मधुसूदनः ॥ ४३ ॥ यादवाश्च धनं प्राप्य विधिवद् गुरु-
दक्षिणैः । गङ्गैरिष्ट्वा महात्मानो द्वारकागावसन् पुत्रीम् ॥ ४४ ॥
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि नारदवाक्यं-
नाम अथिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥

जनमेजय उवाच।वहूनां स्त्रीसहस्राणामष्टौ भार्या गकीर्तिताः ।
तामापत्यान्यष्टानां भगवन् प्रवर्षीतु मे ॥ १॥ वैशम्पायन उवाच।
अष्टौ महर्षयः पुत्रिण्य इति प्राधान्यतः स्मृताः । सर्वा वीरप्रजा-
श्रेय ताभ्यस्त्यानि मे शृणु ॥ २ ॥ रुक्मिणी सत्यभामा च देवी

लोकर (अनेक) कर्म किये हैं ४० व्यामजीने अपने तपोमयनेत्र
से यह यह सब वस्त्र पहिलेही कह दी थीं, क्योंकि-वे महायोगी
महाबुद्धि और सबको मृत्यन्त देवने वाले हैं ४१ वैशम्पायनजी
ने कहा, कि-नागदमुनि इन्द्रके कहनेसे गोविन्दकी स्तुति करके
यादवोंसे सत्कार पाकर स्वर्गको चले गए ४२ तदान्तर कमल
की सपान नेत्रों वाले मधुसूदन गोविन्दने वह सब धन आन्धक
और वृष्णिगोंको उचिन रीतिसे बाँट दिया ४३ महात्मा यादव
भी धन पाकर बड़ी २ दक्षिणा वाले यज्ञ कर द्वारकामें रहने
लगे ४४ एक सौ दोना अध्याय समाप्त ॥ १०२ ॥

जनमेजयने कहा; कि-हे भगवन् ! आपने अनेक सठस्र स्त्रियों
मेंसे भगवानकी आठ स्त्रियोंका वर्णन किया है, उन आठोंकी
सन्तानका मुझसे वर्णन करिये । वैशम्पायनजीने कहा; कि-
आठ स्त्रियों विशेषतः पुत्रिणी करन्तानी हैं, उन सबकी गजा
वीर थी उन सन्तानोंको तुम सुनो ॥ २ ॥ रुक्मिणी सत्यभामा

नाग्नजिती तथा। सुदत्ता च तथा शैल्या लक्ष्मणा चारुहासिनीश्च
मित्रविन्दा च कालिन्दी जाम्बवत्याश्च पौरवी । सुभीमा च तथा
माद्री रुक्मिणीतनयान् शृणु ॥४॥ प्रद्युम्नः प्रथमं जज्ञे शम्बरान-
करः शुभः । द्वितीयश्चारुदेव्याश्च वृष्णसिंहो महारथः ॥ ५ ॥
चारुभद्रश्चारुगर्भः सुदेव्या द्रुम एव च । सुपेणश्चारुदेव्याश्च चारु-
विन्दश्च वीर्यवान् ॥ ६ ॥ चारुवाहुः कनीयाश्च कन्या चारुमती
तथा । जज्ञिरे सत्यभाग्यां भानुर्भीमरथस्तथा ॥ ७ ॥ रोहिणे
दीप्तिमांश्चैव ताम्रजाज्ञो जलान्तकः । भानुर्भीमनिका चैव नाम-
पर्णी जलन्धमाः ॥ ८ ॥ चतस्रो जज्ञिरे तेषां स्वस्रस्रे गरुडध्व-
जात् । जाम्बवत्याः सुतो जज्ञे साम्बः समितिशोभनः ॥ ९ ॥
मित्रवन्मित्रविन्दश्च मित्रवत्पि चांगना । मित्रवाहुः सुनीयश्च
नाग्नजित्याः प्रजाः शृणु ॥ १० ॥ भद्रकारो भद्रविन्दा कन्या भद्र-

देवी नाग्नजिती सुदत्ता शैल्या चारुहासिनी लक्ष्मणा मित्रविन्दा
कालिन्दी जाम्बवती-पौरवी सुभीमा-माद्री(उममें अब) रुक्मिणी
के पुत्रोंको तुम सुनो ॥ ३-४ ॥ प्रथम पुत्र शम्बरका नाश करने
वाला प्रद्युम्न हुआ और दूसरा वृष्णसिंह महारथी चारुदेव्या
हुआ ॥ ५ ॥ और चारुभद्र चारुगर्भ सुदेव्या द्रुम वीर्यवान् चारु-
विन्द (दूसरा) चारुदेव्या सबसे छोटा चारुवाहु और चारु-
मती नामवाली कन्या(उत्पन्न हुई थी) सत्यभाग्यां भानु भीम-
रथ रोहिण दीप्तिमान् ताम्रजाज्ञ और जलान्तक उत्पन्न हुए और
इनकी भानु भीमनिका ताम्रपर्णी और जलन्धमा नाम वाली
चार बहिनें उत्पन्न हुई थीं, गरुडध्वज श्रीकृष्णसे जाम्बवतीके
सभाको सुशोभित करने वाला साम्ब नामक पुत्र हुआ ६-९
और मित्रवान् मित्रविन्द मित्रवाहु सुनीय (नामक पुत्र) और
मित्रवती नाम वाली कन्या(उत्पन्न हुई) अब आप नाग्नजित्की
पुत्रीके स्तनानोंको सुनो ॥१०॥ भद्रकार, भद्रविन्द और भद्रवती

वनी तथा । सुदत्तायां तु शैव्यायां संग्रामजिदजायत ॥ ११ ॥
सत्यजित्सेनजिन्वैव तथा शूरः सपत्नजित् । सुभीमायाः सुतो
भाद्रया-वृकाश्वो वृकनिर्हृतिः ॥ १२ ॥ कुमारो वृकदीप्तिश्च लक्ष्म-
णायाः प्रजाः शृणु । गात्रवान् गात्रगुप्तश्च गात्रविन्दश्च वीर्य-
वान् ॥ १३ ॥ जज्ञिरे गात्रवत्या च भगिन्यानुजया सह । अश्रु-
तश्च सुतो जज्ञे कालिन्द्या श्रुतसंमतः ॥ १४ ॥ अश्रुतं श्रुत-
सेनापै-गददौ गधुमूदनः । तं पदाय हृषीकेशस्तां भार्या मुदितो-
ऽनवीत् ॥ १५ ॥ एष वामुभयोरस्तु दायादः शाश्वतीः समाः ।
बृहत्यां तु गदस्याङ्गः शैव्यागामंगदं सुतम् ॥ १६ ॥ उत्पन्नं कुमुदं
चैव श्वेतं श्वेतां तथाङ्गना । अगावहः सुमित्रश्च शुचित्रिन्नरथ-
स्वथा ॥ १७ ॥ चित्रसेनः सुदेवायारिचित्रा चित्रवती तथा । वन-
स्तम्बश्च जज्ञाते सुगस्तम्बवनश्च ह ॥ १८ ॥ निवासनो वन-

नाम वाली कन्या (उसके थी) शैव्या-सुभीमा के संग्रामजित्
नामक पुत्र हुआ ॥ ११ ॥ और सत्यजित् सेनजित् और शूर
सपत्नजित् भी उसके पुत्र थे; मद्रदेशकी सुभीमाके वृकाश्व वृक-
निर्हृति कुमार और वृकदीप्ति नामक पुत्र थे अब आप लक्ष्मणा
की सन्तानको सुनिये, गात्रवान् गात्रगुप्त वीर्यवान्-गात्रविन्द ये
अपनी छोटी बहिन गात्रवतीके साथ उत्पन्न-हुए थे, कालिन्दीके
श्रुतसम्मत अश्रुत नामक पुत्र हुआ ॥ १२-१४ ॥ गधुमूदनने
अश्रुत श्रुतसेनाको दे दिया अपनी भार्याको श्रुतसेन नामक पुत्र
देकर येश्वने उस भार्यासे प्रसन्न होते हुए कहा, कि-॥ १५-॥
ये पुत्र हमे दोनोंका बहुत समय तक उत्तराधिकारी रहेगा, कहते
हैं कि-शिविवंशी घृहन्तीमें अद्भुत नामक पुत्र हुआ था ॥ १६ ॥
और कुमुद श्वेत अगावह सुमित्र शुचि चित्ररथ चित्रसेन और
श्वेत नाम वाली पुत्री भी हुई थी, सुदेवाके विचित्र चित्रवती नाम
वाली पुत्री और वनस्तम्ब और स्तम्बवन नामक पुत्र हुए

स्तम्बः कन्या स्तम्बवती तथा । उपसन्नश्च शङ्करश्च वज्रशु-
 क्षिप्र एव च ॥ १६ ॥ कौशिक्यां श्रुतसोमार्था गौधित्थिर्या युधि-
 छिरः । कापाली गरुडश्चैव जज्ञाते चित्रगोधिनी ॥ २० ॥ एव-
 यादीनि पुत्राणां सहस्राणि निबोध मे । दशायुतं सगारुवाता वासु-
 देवस्य ते सुताः ॥ २१ ॥ अयुतानि तथा चाष्टौ शूरा रणविशा-
 रदाः । जनार्दनस्य प्रसवः कीर्तितोयं तथा गया । प्रद्युम्नस्य सुतो
 जज्ञे वैदर्भ्यां राजसत्तम । अनिरुद्धो रणेऽरुद्धो जज्ञे स मृग-
 केतनः ॥ २३ ॥ रेवत्यां बलदेवस्य जज्ञाते निशठोऽसुकी । भ्रातरौ
 देवसंकाशावुभौ पुरुषसत्तमौ ॥ २४ ॥ सुगनुश्च सुतारा च शौर-
 रास्तां परिग्रहः । पौण्ड्रकः कपिलश्चैव वसुदेवस्य तौ सुतौ ॥ २५ ॥
 तारायां कपिलो जज्ञे पौण्ड्रश्च सुतनोः सुतः । तयोर्द्वौऽभवत्

ये ॥ १७ ॥ १८ ॥ और कुशिकवांशी श्रुतसोमार्थे निवासिन वनः-
 स्तम्ब उपसन्न शङ्क वज्रांशु क्षिप्र और स्तम्बवती नाम वाली
 कन्या उत्पन्ना हुई थी, और युधिष्ठिरवंश वाली स्त्रीमें कापाली
 नाम वाली पुत्री और विचित्र युद्ध करने वाले युधिष्ठिर और
 गरुड नामक पुत्र हुए थे ॥ १६ ॥ २० ॥ इस प्रकार वासुदेवके
 सहस्रां पुत्र आप समझिये, मैंने आपसे कहा है, कि वासुदेवके
 एक लाख अस्सी हजार रणविशारद शूरा पुत्र थे इस प्रकार
 मैंने तुमसे जनार्दनकी सन्तानका विवरण कर दिया ॥ २१ ॥ २२ ॥
 हे राजसत्तम ! प्रद्युम्नके वैदर्भीमें अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, वह
 रणमें किसीसे नहीं रुकता था और उसकी ध्वजा मृगसे चिह्नित
 थी ॥ २३ ॥ बलदेवके रेवतीमें निशठ और उद्वेगुके नामक दो
 पुत्र हुए, वे दोनों भाई देवताकी समान थे और पुरुषोंमें श्रेष्ठ
 थे ॥ २४ ॥ वसुदेवकी सुगनु और सुतारा नाम वाली स्त्रियों थीं
 (उनसे) वसुदेवके पौण्ड्र और कपिल नामक पुत्र हुए थे
 उनमें पौण्ड्र राजा हुआ और कपिल वनको जला गया था २५

पौंड्रः कपिलरथ वनं ययी ॥ २६ ॥ तुर्यां समभवद्दीरो वसु-
 देवान्महाव्रतः । जरा नाम निर्पादानां मधुः सर्वधनुष्मताम् २७
 काश्यां सुचार्षं वनयं खेभे साम्वात्तरस्विनम् । सानुर्जङ्घेऽनिरु-
 दस्य वज्रः सानोरजापत ॥ २८ ॥ वज्राज्जङ्घे प्रतिरथः सुचारु-
 स्तस्य चात्मजः । अनमिच्छाच्छिनिर्जङ्घे कनिष्ठाद् वृष्णिणन्दनात्
 शिनेस्तु सत्यवाग्मङ्घे सत्यकश्च महारथः । सत्यकस्यात्मजः शूरो
 युयुधानस्त्वजापत ॥ ३० ॥ असङ्गो युयुधानस्य मणिस्तस्याभवत्
 सुतः । मणोर्युगम्बरः पुत्र इति वंशः समाप्यते ॥ ३१ ॥

इति भीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि वृष्णिवंशानु-
 कीर्त्तने उपधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥

जनमेजय उवाच । य एष भवता पूर्व शम्बरघ्नेत्युदाहृतः ।
 मधुम्नः स कथं जघ्ने शम्बरं तद्ब्रवीहि मे ॥ १ ॥ दौशम्पायन

गारासे कपिल उत्पन्न हुआ था और पौण्ड्र सुभद्रका पुत्र था
 वसुदेवके चौथी (शूद्रा) स्त्रीसे जरा नामक महावली पुत्र हुआ
 था और सकल धनुषधारी निषादोंका स्वामी था ॥२६॥२७॥
 काशीके साम्बसे सुचार्ष नामक कुर्बीला पुत्र हुआ था, अनिरुद
 के सानुनामक सुत हुआ, सानुके वज्र हुआ ॥२८॥ वज्रसे प्रति-
 रथ हुआ, उसका पुत्र सुचारु हुआ, छोटे वृष्णिणन्दन अनिमित्त
 से शिनि उत्पन्न हुआ था ॥ २९ ॥ शिनिके सत्य बोलने वाला
 महारथी सत्यक हुआ सत्यकके शूरवीर युयुधान नामक पुत्र
 हुआ ॥ ३० ॥ युयुधानके असंग हुआ, उसका पुत्र मणि हुआ,
 मणिके युगम्बर नामक पुत्र हुआ, इस प्रकार वंश समाप्त होता
 है ॥ ३१ ॥ एक सौ तीनवाँ अध्याय समाप्त ॥ १०३ ॥

जनमेजयने कहा, कि-आपने पहिले जिस शम्बर देत्यका नाश
 करने वाले मधुम्नका वर्णन किया, उन मधुम्नने शम्बरके किस
 प्रकार मारा था, उसका मुझसे वर्णन करिये ॥१॥ दौशम्पायन

सवान । रुक्मिण्यां वासुदेवस्य लक्ष्म्यां कामो धृतप्रतः । शम्बरान्तकरो जङ्घे मधुञ्जः कागदर्शनः । सनत्कुमार इति यः पुराणेषु परिगीयते ॥ २ ॥ तं सप्तसत्रे सम्पूर्णं निशीथे सूतिकाष्टदात् । जहार कृष्णस्य सुतं शिशुं श्री कालशम्बरः ॥ ३ ॥ विदितं तस्य कृष्णस्य देवमायानुवर्तिनः । ततो न निगृहीतः स दानवो युद्धदुर्मदः ॥४॥ स मृत्युना परीतायुर्मायया मजहार तम् । दोर्भ्यामुत्तिष्ठ्य नगरं स्वं निनाय महासुरः ॥५॥ अनपत्या तु तस्यासीद्भार्या रूपगुणान्विता नाम्ना मायावती नाम मायेव शुभदर्शना देवदत्ता तं वासुदेवस्य पुत्रं पुत्रमिवात्मजम् । तस्या महिष्या गायिन्या दानवः कालवोदितः ॥७॥ मायावती तु तं हृष्टा संप्रहृष्टतनूहृहा ।

जीने कहा; कि-वासुदेवकी लक्ष्मी (की अवतार) रुक्मिणीमें व्रतधारी मनोहर दीखने वाले कामदेव मधुञ्ज (नागसे) उत्पन्न हुए थे, उन्होंने शम्बरको मारा था ये पुराणोंमें सनत्कुमार भी कहाते हैं । २। कृष्णके उन बालक पुत्रको सात रात्रि पूर्ण होने पर कालशम्बर रातमें सूतिकाष्टहसे हर कर ले गया ॥३॥ देव माया जिनका अनुवर्तन करती हैं, उन कृष्णको सब बात विदित थी, इसी लिये उन्होंने इस युद्धदुर्मद दानवको नहीं पकड़ा था मृत्यु जिसकी आपुको समाप्त कर रही थी उस कालशम्बरने कुमारको मायासे हर लिया, फिर वह महाराजस अपनी दोनों सुनाओं पर उसको धर कर आने नगरको चला गया ।४।५। उसती रूप और गुणवती मायावती नाम वाली स्त्री थी, वह सन्तान रहित थी और माया की समान शुभदर्शना थी (यह स्त्री रतिकी प्रतिच्छाया थी, यह बात आगे स्पष्ट होगी) ॥ ६ ॥ कालसे प्रेरित उस दानवने उस मायावती रानीको वासुदेवके पुत्रको अपने पुत्रकी समान दे दिया ।७॥ उसको देख कर मायावतीके रोम रोम खिल गए, और वह परम प्रसन्न होकर उस

हर्षेण महता युक्ता पुनः पुनरुदैत्तत ॥ ८ ॥ अथ तस्य निरी-
त्तन्त्याः स्मृतिः मादुर्वभूव ह । अयं स मग कान्तोऽभूत् स्मृत्नैवं
चान्वचितपत् ॥ ९ ॥ अयं स नाथो भर्ता मे यस्यार्थेहं दिवा-
निशम् । चिन्ताशोकार्णवे मग्ना न विन्दामि रतिं क्वचित् ॥ १० ॥
अयं भगवता पूर्व देवदेवेन शूलिना । खेदितेन कृतोऽनङ्गो दृष्टो
जात्यन्तरे मया ॥ ११ ॥ कथमस्य स्तनं दास्ये मातृभावेन जानती ।
भर्तुर्भाया त्वहं भूत्वा वचये वा पुत्र इत्युग ॥ १२ ॥ एवं संचिन्त्य
मनसा धात्र्यास्तं सा समर्पयत् । रसायनप्रयोगैश्च शीघ्रमेव कर्म-
वर्धयत् ॥ १३ ॥ धात्र्याः सकाशात् स च तां शृण्वन्कृष्णि-
नन्दनः । गाथावतीमविज्ञानाम्नेने स्वामेव मातृस्मृ ॥ १४ ॥ सा
च तं वर्धयामास कृष्णि कर्मललोचनम् । गायारचास्मै ददौ सर्वा
दानवीः काममोहिता ॥ १५ ॥ स यदा यौवनस्थस्तु मद्युम्नः काम-

को वार वार देखने लगी ॥ ८ ॥ देखते देखते उसको यह
प्याद आगई, कि-पह तो मेरे स्वामी थे. इस बातका स्मरण
आने पर वह विचारने लगी, कि- ९ मेरे यह वही स्वामी और
नाथ हैं, जिनके लिये मैं रात दिन चिन्तारूपी समुद्रमें डूबी रहती
हूँ और कहीं पर आनन्द नहीं पाती हूँ ॥ १० ॥ पहिले इन्होंने
महादेवजीको खिन्न किया था, तब उन देवदेव शूलधारीने इन
को अर्घ्य-कर दिया था अब मैंने इनको दूसरे देहमें देखा है ११
मैं जानने बूझ कर मातृभाबसे इनके मुग्धमें स्तन कैसे देसकती हूँ
और उन स्वामीकी भार्या होकर मैं इनको पुत्र कैसे कहूँगी १२
मनमें इस प्रकारका विचार करके उसने मद्युम्नको धायको सौंप
दिया और उसे रसायनोंका प्रयोग कर शीघ्र ही बढ़ाने लगी १३
वह कृष्णिनन्दन अज्ञानवश और धाईसे मुननेके कारण गाय-
वतीके ही अपनी माता मानता था १४ और वह कर्मललोचन
कृष्णके पुत्रका पालन करने लगी, उस काममोहिता ने उसको

दर्शनः । चिकीर्षितज्ञो नारीणां सर्वास्त्रविधिपारंगः ॥ १६ ॥ तं
 सा मायावती कान्तं कामपापास कामिनी । इङ्गितैश्नापि वीक्षन्ती
 मालोभयत सस्मिता । प्रसञ्जन्ती तु तां देवी वभापे चारुहासि-
 नीम् ॥ १७ ॥ प्रद्युम्न उवाच । मातृभावं व्यतिक्रम्य क्रियेवं वर्त-
 सेऽन्यथा । अहो दुष्टस्वभावासि स्त्रीत्वे चपलपानसा ॥ १८ ॥
 या पुत्रभावमुत्पृज्य मयि लोभात् प्रवर्तते । न तु तेऽहं सुतः सौम्ये
 कोयं शीलविपर्ययः ॥ १९ ॥ तत्त्वमिच्छामिहं देवि कथितं कौन्वयं
 विधिः । विद्युत्सम्पातचपलः स्वभावनः खलु गोपिताम् ॥ २० ॥
 या नरेषु प्रसज्जन्ते नगाग्रेषु घगा इव । यदि तेऽहं सुतः सौम्ये
 यदि वा नात्मजः शुभे ॥ २१ ॥ कथितं तत्त्वमिच्छामि किमिदं ते

सब, दानवी मायाएँ भी सिखा दी ॥ १५ ॥ जब वह कामदर्शन
 प्रद्युम्न युवा होगयो, तब वह स्त्रियोंकी कामनाओंको जानने
 लगा और अस्त्रोंकी सम्पूर्ण विधियोंमें पारंगत होगया ॥ १६ ॥
 वह कामिनी मायावती उस मनोहर पुरुषको चाहने लगी और
 वह इशारे कर तथा मुस्करा कर और देख देख कर उसको
 लुभाना चाहने लगी, इस प्रकारकी चेष्टा करने वाली उस चारु-
 हासिनीसे प्रद्युम्नने कहा ॥ १७ ॥ प्रद्युम्न बोले, कि-तुम मायाके
 भावको छोड़ कर ऐसा व्यवहार कैसे कर रही हो ? अहो !
 तुम्हारा स्वभाव बड़ा दुष्ट है, स्त्री होनेके कारण तुम्हारा मन
 चपल है ॥ १८ ॥ तुम पुत्रभावको छोड़ कर मेरे साथ गोपनीय बर्ताव
 कर रही हो, क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ ? हे सौम्ये ! यह शील-
 विपर्यय कैसा ? ॥ १९ ॥ मैं तत्त्व वातको सुनना चाहता हूँ हे
 देवि! यह कौनसी विधि है, स्त्रियोंका स्वभाव विजलीके बमकने
 की समान चपल होता है ॥ २० ॥ कि वे मनुष्योंसे इस प्रकार
 प्रेम करने लगती हैं, जिस प्रकार पर्वतोंके शिखरोंसे बादल
 निपट जाते हैं, हे सौम्ये ! यदि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँ अगवा हे

चिकीर्षितम् । एवमुक्त्वा तु सा भीरुः कामेन व्यथितेन्द्रिया २२
 प्रियं मोघाच्च वचनं विविक्ते केशवात्मजम् । न त्वं मम सुतः कांत
 नापि ते शम्बरः पिता ॥ २३ ॥ रूपवानसि विक्रान्तस्त्वं जात्या
 वृष्णिनन्दनः । पुत्रस्त्वं वासुदेवस्य रुक्मिण्यनन्दवर्धनः ॥ २४ ॥
 दिवसे सप्तमे बालो जातमात्रोपवाहितः । सूतिकागारमध्यात्त्वं
 शिशुरुत्तानशायितः ॥ २५ ॥ गग भर्त्रा हृतोसि त्वां बलवीर्य-
 प्रवर्तिना । पितुस्ते वासुदेवस्य धर्षयित्वा गृहं महत् ॥ २६ ॥ पाक-
 शासनकल्पस्य हनस्त्वं शम्बरैण ह । सा च ते करुणं गाता त्वां
 बालमनुशोचती ॥ २७ ॥ अत्यर्थं तप्यते वीर विवत्सा सौरभी
 यथा । सोऽपि शक्रादपि गहान् पिता ते गरुडध्वजः ॥ २८ ॥
 इह त्वां नाभिजानामि बालमेवोपवाहितम् । कान्त वृष्णिकुमार-

शुभे ! तुम्हारा पुत्र न होऊँ २१ तब भी तब्र वातको सुनना
 चाहता हूँ, तुम्हारी यह क्या चेष्टा है इस प्रकार कहने पर वह
 काम से व्यथित इन्द्रियों वाली भीरु स्त्रीने २२ कृष्णके पुत्रसे
 एकान्त में प्रिय वचन कहा, कि-हे कांत ! तुम मेरे पुत्र नहीं हो
 और शम्बर भी तुम्हारा पिता नहीं है २३ आप रूपवान् है विक्रमी
 हैं और आपका जन्म वृष्णिगणशर्म हुआ है, आप वासुदेवके पुत्र
 हैं और रुक्मिणीके अनन्दके बढ़ाने वाले हैं २४ जन्म होनेके
 अनन्तर सातवें दिन ही जब आप सूतिका गृहमें ऊपरको टाँग
 करके लेंटे हुए थे तब ही आपको हर लिया गया था २५ बल
 और वीर्यके प्रवर्तक मेरे स्वांगीने आपके पिता वासुदेवके भवन
 का अपमान कर आपको हर लिया था २६ शम्बरने इन्द्रकी
 समान आपके पिताके घरसे आपको उड़ा लिया था, हे वीर !
 जैसे बड़ड़े सहित गौ परम सन्तप्त होती है, ऐसे ही आप बालक
 का शोक करती हुई आपकी माता भी सन्ताप पा रही हैं, आप
 के पिता गरुडध्वज इन्द्रसे भी बड़े हैं २७-२८ आप बालक यहाँ

स्त्वं न हि त्वां शम्बरः प्रजः ॥ २६ ॥ नीर नैवं विधा पुत्रान्
 दातुं जनयन्ति हि । अतोऽहं कामया म त्वां न हि त्वां जनितो
 मया ॥ ३० ॥ रूपं ते सौम्य पश्यन्ती सीदामि हृदि दुर्बला । यन्मे
 व्यसितं कान्त यत्तु मे हृदि वर्तते ॥ ३१ ॥ तन्मे मनसि वाष्पेय
 त्रिसिन्ध्यातुमर्हसि एष ते कथितः सर्गः सद्भावस्त्वयि यो मम ३२
 यथा न मम पुत्रस्त्वं न पुत्रः शम्बरस्य च । श्रुत्वैषमखिलं सर्वं
 मायावत्याः प्रभाषितम् ॥ ३३ ॥ चक्रांशुधात्मजः कुट्टः शम्बरं स
 समाहवत् । सर्वाभायास्त्रभिज्ञोऽसौ नाम विश्राज्य चात्मनः ॥ ३४ ॥
 अहो दानव दुष्टात्मन् केशवस्यात्मजं शिशुम् । हरते निर्भयश्चैव
 भयमद्य करोम्यहम् ॥ ३५ ॥ कथं नै क्रोधमागच्छेद्दध्यते वा कथं
 मया । मथमं किं करिष्यामि येन कुप्यति मन्दधीः ॥ ३६ ॥ अस्ति

पर हैं, इस बातको वे नहीं जानते हैं, हे कान्त ! आप वृष्णि-
 कुमार हैं, शम्बरके पुत्र नहीं हैं २६ हे नीर ! ऐसे पुत्रोंको दानव
 उत्पन्न नहीं करते हैं, मैंने आपको उत्पन्न नहीं किया है इस लिये
 मैं आपकी इच्छा करती हूँ ॥ ३० ॥ हे सौम्य ! मैं आपके रूपको
 देख कर हृदयमें कष्ट पा रही हूँ क्योंकि—मैं दुर्बल हूँ, हे कान्त !
 जो मेरी चेष्टा है और जो मेरे मनकी बात है ३१ हे वाष्पेय !
 वह मेरे मनमें है आप उसको पूर्ण करिये, तुम्हारे ऊपर मेरा जो
 सद्भाव है, वह सब मैंने तुमसे कह दिया ॥ ३२ ॥ तुम जिस प्रकार
 मेरे पुत्र नहीं हो इसी प्रकार शम्बरके भी पुत्र नहीं हो मायावती
 की इन सब बातोंको सुनकर ॥ ३३ ॥ चक्रके आपुधको धारण
 करने वाले श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्युम्न क्रोधमें भरगए वह सब मायाओं
 को जानते थे उन्होंने अपना नाम सुना कर शम्बरको पुकारा ३४
 अहो ! यह दुष्टात्मा दानव केशवके बालक पुत्रको निर्भय होकर
 हर लाया था अब मैं इसको भयभीत करूँगा ॥ ३५ ॥ इसको
 किस प्रकार क्रोध आवेगा और यह मुझसे किस प्रकार पार

चास्य ध्वजं चित्रं सिंहकेतुविभूषितमातोरणं गृहमासाद्य उच्छ्रितं
मेरुशृङ्गवत् ॥ ३७ ॥ एतदुन्मथ्य पीतिप्ये भङ्गलेन निशितेन वी ।
ध्वजञ्छ्वेदं विदित्वाथ शम्बरो निष्क्रमिष्यति ॥३८॥ ततो युद्धेन
इत्वाऽगौ गन्तास्मि द्वारकां प्रति । इत्युक्त्वा सज्जमात्रके संशरं
चापगोत्रसा ॥३९॥ चिञ्छेद् ध्वजरत्नं तु शम्बरस्य महाभुजः ।
तच्छ्रुत्वा तु ध्वजञ्छ्वेदं प्रद्युम्नेन महात्मना ॥ ४० ॥ क्रुद्धस्त्वा-
ज्ञापयापास पुत्रान् वै कालशम्बरः।गित्र्यांसध्वं महावीरा रविम-
ण्यं त्वरान्विता ॥४१॥ नैनं वै द्रष्टुमिच्छामि मम विपिगकार-
कम् । श्रुत्वा तु शम्बरोद्वाक्यं सुतास्ते शम्बरस्य ह ॥४२॥संनद्धा
निर्भयुर्हृष्टाः प्रद्युम्नवधतां जया । चित्रसेनोतिसेनश्च विष्वक्सेनो
गदस्तथा ॥४३॥श्रुतसेनः सुपेणस्तु सोमसेनो मनस्तथा । सेनानीः

जाय और मैं ऐसा पहले कौनसा काग करूँ जिससे यह मन्दबुद्धि
कोपमें भरजाय ॥ ३६ ॥ इसकी सिंहके चित्रसे विभूषित विचित्र-
ध्वजो है वह मेह पर्वतके समान ऊँची है मैं इसके घरमें जाकर
इसके तोरणको तोड़ डालूँगा और इसकी ध्वजाको भङ्गलेसे काट
कर गिरा दूँगा तब ध्वजाका टूटना सुन कर शम्बर निकल
आयेगा ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ तब मैं इसको युद्धमें मारकर द्वारकामें
चला जाऊँगा इस प्रकार कहकर उन्होंने बलपूर्वक अपने धनुष
पर बाण ही साधा ॥ ३९ ॥ तदनन्तर उन महाभुजने शम्बरके
ध्वजरत्नको काट डाला महात्मा प्रद्युम्नने ध्वजाको काट डाला
है इस बातको सुन कर ॥ ४० ॥ कालशम्बरने जोधमें भर कर
अपने पुत्रोंको आज्ञा दी, कि—हे महावीरों ! तुम कृत्तिके साथ इस
रुक्मिणीके लड़केको मार डालो ॥ ४१ ॥ मैं इन अपना बुरा
चाहने वालोंको देखना नहीं चाहता शम्बरसे इस बातको सुनकर
शम्बरके पुत्र प्रद्युम्नका बध करनेकी इच्छासे तपार होकर प्रसन्न
होते हुए निकले चित्रसेन, अतिसेन, विश्वसेन, गद, श्रुतसेन,

सैन्यहन्ता च सेनाहा सैनिकस्तथा ॥ ४४ ॥ सेनस्कन्धोतिसेनश्च
 सेनको जनकः सुतः । सकालो विकलः शान्तः स शान्तान्तकरो
 विभुः ॥ ४५ ॥ कुम्भकेतुः सुदंष्ट्रश्च केशिरित्येव ॥ ४६ ॥ चक्र-
 तोमरशूलानि पट्टिशानि परश्वभान् ॥ ४६ ॥ शृङ्गीत्वा निर्घृष्टं
 मन्थुना परमाप्तुता । आह्वयन्तमपित्रं वै तस्युः । संग्राममूर्त्तिनि ४७
 प्रद्युम्नस्तु महाबाहू रथमारुह्य सत्वरमूर्त्तिनिर्घृष्टौ चागमादाय संग्रा-
 मगामिमुखस्तदा ॥ ४८ ॥ ततः गृह्यं युद्धं तु तुमुनं लोमहर्षणम् ।
 शम्भ्रास्य तु पुत्राणां केशवस्य च सूनुना ॥ ४९ ॥ ततो देवाः
 सगन्धर्वाः समहोरगचारणाः । देवराजं पुरस्कृत्य विमानाग्रेषु
 प्रिष्टिताः ॥ ५० ॥ नारदस्तुम्बुरुश्चैव हाहा हृहृश्च गायनाः ।
 अप्सरोभिः परिवृताः सर्वे तत्रावतस्थिरे ॥ ५१ ॥ देवराजमती-
 हारो गन्धर्वश्चिनपद्भुतम् । शशंस देवराजाय वज्रिणे तद्विचेष्टि-
 तम् ॥ ५२ ॥ शम्भ्वरस्य शतं पुत्रा एकः कृष्णस्य चात्मजः । चहुनां
 सुपेण, सोमसेन, तथा मन, सेनानी, सैन्यहन्ता, सेनाहा, सैनिक,
 सेनस्कन्ध; अतिसेन, सेनक, जनक, सुत; सकाल, विकल, शान्त,
 विभु-शान्तान्तकर, कुम्भकेतु, सुदंष्ट्र और केशि आदि चक्र तोमर
 शूल पटे और फरसोंको लेकर प्रसन्न होते हुए निकल पड़े और
 संग्रामके मुहाने पर पहुँच परमकोरमे भर शत्रुका बुलाने लगे ४७
 उस समय महाभुज प्रद्युम्न शीघ्रतासे रथ पर सवार होगया और
 शत्रुपते लेकर संग्रामकी ओर चल दिया ॥ ४८ ॥ उस समय
 शम्भ्वरके पुत्रोंका केशवके लड़केके साथ रोंगटे खड़े करने वाला
 तुमुन युद्ध चलने लगा ॥ ४९ ॥ तदनन्तर देवता गंधर्व वड़े २
 सर्प और चारण देवराजको आगे कर उच्चम २ विमानोंमें तहाँ
 आकर बैठ गए ॥ ५० ॥ नारद तुम्बुरु हाहा हृहृ यह सय गाने
 वाले अप्सराओंको साथमें ले, तहाँ आकर खड़े हो गए ॥ ५१ ॥
 उस समय देवराजका द्वारपाल गंधर्व वज्रमारी देवराजसे इस

(८८४) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [चतुरधिकशततम

शुद्धतामेव कथं विजयमाप्नुयात् ॥५३॥ तच्छ्रुत्वा भाषितं तस्य
प्रहस्य बलमूदनः । उदान वचनं चेदं शृणु योऽस्य पराक्रमः ५४
कागोऽयं पूर्वदेहे तु हरक्रोधाग्निना हनः । रत्या प्रसादितो देवः
कामपत्न्या त्रिलोचनः । परितुष्टेन देवेन वरमस्याः गदीयत ५५
विष्णुर्मानुपदेहस्तु द्वारकायां भविष्यति तस्य पुत्रत्वगस्यैव भवि-
ष्यति न संशयः ॥५६॥ अनङ्ग इति विख्यातस्त्रैलोक्ये तु महा-
यशाः । तत्रोत्पन्नो महातेजाः शम्बरं घ्नानिष्यति ॥५७॥ सप्ताहे
जातमात्रे तु रुक्मिण्याः क्रोडसंस्थितम् । आस्थाय शम्बरो मायां
प्रशुम्नमपनेष्यति ॥ ५८ ॥ तद्रुच्छ शम्बरगृहं भार्या मायावती
भव । मायारूपपतिच्छन्ना शम्बरं मोहयिष्यसि ॥ ५९ ॥ तत्र

अद्भुत कार्यका वर्णा करने लगा ॥ ५२ ॥ कि-शम्बरके सौ
लहके हैं और कृष्णके पुत्र एक ही हैं इस बहुतोंके साथ युद्ध
करने वालेको किम प्रकार विजय मिलेगी ॥ ५३ ॥ उसकी बात
को सुन कर बलदैत्यका नाश करने वाले इन्द्रने हँस कर कहा,
कि-इसमें जो पराक्रम है तुम उसको सुनो ॥ ५४ ॥ यह पहिले
देहों कामदेव था और शिवजीके क्रोधकी अग्निसे मारा गया था
उस समय कामकी पत्नी रतिने तीन नेत्रवाले महादेवजीको प्रसन्न
होकर वरदान दिया था, कि- ॥ ५५ ॥ द्वारकामें विष्णु मनुष्य
का देह धारण करेंगे तब यह उनका पुत्र बनेगा इसमें कुछ सन्देह
नहीं है ॥ ५६ ॥ यह महायशस्वी त्रिलोकीमें अनङ्गनामसे प्रसिद्ध
होगा और द्वारकामें उत्पन्न होनेके अनन्तर यह महातेजस्वी शंवर
को मार डालेगा ॥५७॥ जब इसको उत्पन्न हुए सात ही दिन
धीतेंगे तब शम्बर मायाका आश्रय लेकर रुक्मिणीकी गोदीमें
पड़े हुए मशुम्नको उठा कर ले जायेगा ॥ ५८ ॥ इस लिये तू
शम्बरके घरको जा और उसकी मायावती नाम वाली भार्या
अर्थात् भरण करने योग्य दासी बन और मायासे ढकी हुई

त्वमात्मनः कान्तं बालरूपं विवर्धय । प्राप्तयौवनदेहस्तु शम्बरं
निहनिष्यति ॥६०॥ ततस्त्वया सहानंगो द्वारकां वै गमिष्यति ।
रमिष्यति त्वया सार्धं शैलपुत्रा यथा ह्यहम् ॥ ६१ ॥ एवमा-
दिश्य देवेशो जगाम पुरुषोत्तमः।कैलासं मेरुसंकाशं सिद्धचारुण-
सेवितम् ॥६२॥ कामपत्नी प्रणम्याथ देवदेवमुगापतिम् । जगाम
शम्बरगृहं कालस्यान्तं यतीन्तती ॥६३॥ परमेव महाबाहुः शम्बरं
निहनिष्यति । सहपुत्रेण प्रद्युम्नो हृता तस्य दुरात्मनः ॥६४॥
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि शम्बरवधे
चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥

वैशम्पायन उवाच । ततः पृच्छं युद्धं तु तुभ्यं लोमहर्षणम् ।
शम्बरस्य तु पुत्राणां रुक्मिण्या नन्दनस्य च ॥ १ ॥ ततः क्रुद्धा
महादैत्याः शरशक्तिपरश्वरान् । चक्रतोमरकुन्तानि मुशुण्डीमुंश-
शम्बरको मोहमे डालती रहो ॥ ५६ ॥ तहाँ पर तू अपने बाल-
रूपधारी स्वामीको पालती रहना जब उसके शरीरमें यौवन आ
जाएगा तब वह शम्बरको मार डालेगा ॥६०॥ तदनन्तर अनङ्ग
तुम्हारे साथ द्वारकाको चलानाएगा और जिस प्रकार मैं शैल
पुत्रीसे रमण करता हूँ इसी प्रकार यह तुम्हारे साथ रमण करेगा
देवताओंके ईश पुरुषोत्तम शिव सिद्ध और चारणोंसे सेवित मेरु-
पर्वतकी सभान कैलाश पर्वत पर चले गए ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ तद-
नन्तर कामकी पत्नी भी उमाके स्वामी देवदेव शिवको प्रणाम
करके समयका अन्त देखती हुई शम्बरके परको चली गई ६३
इस प्रकार यह महाभुज शम्बरको मार डालेंगे प्रद्युम्न इस दुरात्मा
को और इसको पुत्रोंके भी मारडालेंगे ॥६४॥ एक सौ चारवाँ
अध्याय समाप्त ॥ १०४ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-तदनन्तर शम्बरके पुत्रोंका और
रुक्मिणीनन्दनका रोंगटे खड़े करने वाला युद्ध चलने लगेगा ।१।

लानि च । २॥ युगपत्पातयन्ति स्म प्रद्युम्नोपरि वेगिताः । काष्णाय-
निस्तु संक्रुद्धः सर्वास्त्रधनुपरच्युतैः ॥३॥ एकैकं पञ्चभिः क्रुद्धः
श्चिच्छेद रणमूर्धनि । पुनरेवासुराः क्रुद्धाः सर्वे ते कृतनिश्चयाः ४
ववृषुः शरजालानि प्रद्युम्नबधकाक्षया । ततः प्रकुपितोऽनंगो धनु-
रोदाग सत्वरः ॥५॥ शम्बरस्य जघानाशु दश-पुत्रान् महौजसः ।
ततोपरेण भल्लेन कुपिवः केशवात्मजः ॥ ६ ॥ चिच्छेदाशु शिर-
स्तस्य चित्रसेनस्य वीर्यवान् । ततस्ते हतशोपास्तु समेत्य समयुध्यत
शरवर्षं विमुञ्चन्तो ह्यभ्यधावञ्जिघांसितुम् । ततः सन्धायवाणांस्ते
विमुञ्चन्तो रणोत्सुकाः ॥ ८ ॥ क्रीडन्निव महातेजाः शिरां-
स्येपार्मपातयत् । निहत्य समरे सर्वाञ्छतमृत्तमधन्विनाम् ॥ ९ ॥
प्रद्युम्नः सगराकाक्षी तस्थी संग्राममूर्धनि । हतं पुत्रशतं श्रुत्वा

तदनन्तर महादेव क्रोधमें भरकर बाण शक्ति फरसे चक्र तोमर
कुन्त भुशुण्ड और मूमलोंको प्रद्युम्नके ऊपर एक साथ फेंकनेलगे
तदनन्तर कृष्णके पुत्र भी क्रोधमें भर गए और उन्होंने रणके
सुहाने पर खड़े होकर सब चीजोंको छोड़ने वाले धनुषसे पाँच २
बाण छोड़ कर एक २ को बँधा तब तो वे सब निश्चय करनेवाले
राक्षस क्रोधमें फिर भर गए ॥२-४॥ और प्रद्युम्नका बध करने
की इच्छामे बाणोंका जाल बरसाने लगे तब तो प्रद्युम्न क्रोधमें
भर गया और उसने धनुषसे उठा कर ५। शम्बरके दश महा-
बली पुत्रोंको मार डाला तदनन्तर दूसरे भल्लसे क्रोधमें भरेहुए
कृष्णके वीर्यवान् पुत्रने चित्रसेके गस्तकको काटडाला तदनन्तर
परनेसे बाकी बचे हुए राक्षस इकट्ठे होकर युद्ध करने लगे ॥७॥
और वे रणोत्सुकदानव प्रद्युम्नको मारना चाह कर बाणोंकी
वर्षा बरसाते हुए दौड़े और बाणोंको चढ़ा २ कर छोड़ने लगे
तदनन्तर खेलते हुएसे महातेगस्त्री प्रद्युम्नने उनके शिरोंको गिरा
दिया इसप्रकार समरमें सौ उत्तम धनुष धारियोंको मारकर गिरा

शंकरः क्रोधमादधे १० मृतं संचोदयागास रथं मे संयोजय । राज्ञो
 वाक्यं निशम्पाथः प्रणम्य शिरसा भुवि ॥ ११ ॥ ससैन्यं नोदया-
 गास रथं स सुसमाहितम् । युक्तमृष्यसहस्रेण सर्पराजसकेतनम् १२
 शार्दूलचर्मसंबिष्टं किंकणीजालमालिनेमूर्द्ध्वामृगगणाकीर्णं पक्ति-
 भक्तिविराजितम् ॥ १३ ॥ ताराचित्रगिनद्धागं स्वर्णकूबरभूषि-
 तम् । सुपताकमहोच्छ्रागं मृगराजोप्रकेतनम् १४ सुविभक्तवस्त्रं
 च लोहेपात्रकूबरम् । मदीदग्रशिखर चारुचाणेरभूषितम् १५
 नक्षत्रमालापिहितं हेमदण्डसमाहितम् । विराजमानं श्रीगन्तमारो-
 हच्छम्बरो रथम् ॥ १६ ॥ काञ्चनं चित्रसन्नाहं धनुर्गृह्य शरां-
 स्तथा । पस्थितः समराकांती मृ युना परिचोदितः ॥ १७ ॥

दिया समर चाहने वाले मधुमन रणके मुहाने पर रण्डे हो गए,
 सौ पुत्रोंको मरा हुआ सुने कर शम्बरने क्रोध किया ॥ ११ ॥
 और मृतको प्रेरणाकी कि-मेरे रथको जोड़ राजाके वचनको
 सुनकर मृतने पृथिवीमें मस्तकको टेककर भणाम किया ॥ ११ ॥
 तदनन्तर उसने पत्नीप्रकार ठीक गिये हुए रथको और सेनाको
 चलाया उस रथमें सहस्र ऋष्य (एक प्रकारके मृग) जुत रहे थे
 और सर्पराजकी ध्वजा लग रही थी ॥ १२ ॥ वह शेरकी खाल
 से ढका हुआ था, और उसमें सुँधुर्कोंकी माला पड़ी हुई थी,
 उसकी दश चित्रित पंक्तिधर्मोंमें छोटे २ पशु पत्तियोंके चिन्ह बन
 रहे थे ॥ १३ ॥ उसके शवधर्मोंमें तारोंके चित्र बन रहे थे और
 उसका कूबर सुवर्णसे मढ रहा था ॥ १४ ॥ उसका वस्त्र अच्छी
 प्रकार विभक्त था, उसकी ईपा-जुसरी लोहेकी थी और कूबर
 रत्नोंका था ॥ १५ ॥ ऐसे नक्षत्रमालाओंसे चित्रित सुवर्णका दण्ड
 लगे हुए शोभासम्पन्न रथ पर शम्बर चढ गया १६- मधुका
 खदेड़ा हुआ शंकर सुवर्णके विचित्र कवच और धनुष बाणको
 लेकर सगर करनेकी इच्छासे चल दिया ॥ १७ ॥ वह बड़ी

चतुर्भिः सचिवैः सार्धं सैन्येन गृहता वृतः । दुर्धरः, केतुमाली च
 शत्रुहन्ता प्रमर्दनः ॥ १८ ॥ एतौ परिवृतो मात्स्यैर्युयुत्सुः प्रस्थितो
 रणे । दशनागसहस्राणि रथानां द्वे शते तथा ॥ १९ ॥ हयानां
 चाष्टसाहस्रैः प्रयुतैश्च पदातिनाम् । एतैः परिवृतो योधैः शम्बरः
 प्रययौ तदा ॥ २० ॥ प्रयातस्य तु संग्रामे उत्पाता बहवो भवन्तः
 गृध्रचक्राकुलं न्योम सन्ध्याकाराभ्रनादितम् ॥ २१ ॥ गर्जन्ति
 परुषं मेघाः सनिर्घातास्तदा नृप । शिवा विनेदुरशिशं सैन्यं संका-
 ल्यन्महत् ॥ २२ ॥ चक्राशीर्षपतद्गृध्रः कान्तन् वै दानवाष्टजम् ।
 रथाग्रे पतितश्चास्य कवन्धो भुवि दृश्यते ॥ २३ ॥ चीची कूचीति
 वासन्ति शम्बरस्य रथोपरि । स्वर्भानुग्रस्त आदित्यः परिवैः परि-
 चेष्टितः ॥ २४ ॥ स्फुरते नयनं चास्य सव्यं भयनिषेदनम् । बाहुः

भारी सेनासे घिर कर अपने दुर्धर केतुमाली शत्रुहन्ता और
 प्रमर्दन नाम वाले चार मंत्रियोंको साथमें लेकर युद्ध करनेकी
 इच्छासे रणभूमिको चल दिया; दश हजार हाथी, दो सहस्र
 रथ आठ हजार घोड़े और एक लाख पैदल इन सब योधार्थों
 को लेकर शम्बर चल दिया ॥ १९ ॥ २० ॥ जिस समय उसने
 संग्रामको पयान किया उस समय बहुतसे उत्पात होने लगे,
 आकाश गीध और चक्र नागक पक्षियोंसे व्याप्त होगया संध्या
 के आकार (रक्त वर्ण) वाला बादल गड़गड़ाने लगा ॥ २१ ॥
 और हे राजन् ! उस समय मेघ बज्र गिराते हुए क्रूर गर्जना
 करने लगे और बड़ी भारी सेनाको कालके अशिन होनेकी
 सूचना देती हुई गीदड़ियें अशुभ शब्द करने लगीं ॥ २२ ॥ और
 राजसके रक्तको चाहता हुआ गृध्र उसकी ध्वजाके अग्रभाग पर
 गिरा और उसके रथके आगे पृथिवीमें कवच पड़ा हुआ दिखाई
 दिया ॥ २३ ॥ और पत्नी शम्बरके रथके ऊपर चीची कूची शब्द
 करने लगे; सूर्यको राहुने ग्रस लिया और परिवर्तने घेर लिया २४

प्रकम्पते सव्यः प्रस्त्रलग् रथवाजिनः ॥२५॥ ध्याङ्तो मूर्ध्नि
 निपतितः शम्बरस्य भुरारिणः । वर्णा रुधिरं देवः शर्करांगार
 मिश्रितम् ॥२६॥ उक्कागागमहस्ताणि निपेतू रणमूर्द्धनि । प्रतोदो
 न्यपतद्दस्तात् सारथेर्हगयायिनः २७ एतानचिन्वयित्वा तु उत्पातान
 समुपस्थितान् । मयगौ शम्बरः क्रुद्धः प्रद्युम्नवधकाज्ञया ॥२८॥
 भेरीमृदङ्गशङ्खानां पणवानकदुन्दुभेः । युगपन्नाद्यगानानां पृथिवी
 समकम्पत ॥ २९ ॥ तेन शब्देन महता संवस्ता मृगपक्षिणः ।
 समन्ताद् दुद्रुवुस्त्रस्माद्भविवलवचेतसः ॥३०॥ रणमध्ये स्थितः
 कार्द्विणश्चिन्तगन्निधनं रिपोः । सैन्यैः परिवृतोऽसङ्गैर्युद्धाय कृत-
 निधयः ॥३१॥ क्रुद्धः शरसहस्रेण प्रद्युम्नं सगताडयत् । संप्राप्ता-
 र्चैव तान् बाणांश्चिच्छेद कृतहस्तवत् ॥ ३२ ॥

उसका भयकी सूचना देने वाला बाणों नेत्र फड़कने लगा, बाई
 भुजा फड़कने लगी और रथके घोड़े गिरने लगे ॥२५॥ देवताओं
 के शत्रु शम्बरके मस्तक पर कौआ बैठ गया और मेघ रेंता और
 अंगारे मिला हुआ रक्त बरसाने लगा ॥ २६ ॥ रणके गोखरे
 पर सहस्रों उक्काएँ गिरने लगीं और घोड़े चलाने वाले सारथी
 के हाथसे कोड़ा गिर पड़ा ॥ २७ ॥ इन होते हुए सब उत्पातों
 का विचार न करके क्रोधमें भरा हुआ शम्बर प्रद्युम्नके वधकी
 इच्छासे क्रोधमें भरकर चला २८ एक साथ बनाई जाती हुई भेरी
 मृदंग शंख और पणव तथा नगाडों और दुन्दुभियोंके शब्दसे
 पृथ्वी कांपने लगी ॥ २९ ॥ इस शब्दके कारण भयसे घबड़ाये
 हुए चित्त वाले पशु पक्षी चारों ओर दौड़ने लगे ॥ ३० ॥ उस
 समय प्रद्युम्न शत्रुको मारनेका विचार करते हुए रणमें खड़े थे,
 उन्होंने असह्य सेनाओंसे घिर कर (भी) युद्धका ही निश्चय
 रक्खा ॥ ३१ ॥ तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए शम्बरने प्रद्युम्नको
 सहस्रों बाणोंसे ताड़ित किया, तब प्रद्युम्नने उन आते हुए बाण

रादाय शरनर्पं मुपोच ह । तस्मिन् सैन्ये न कोऽप्यस्ति यो न विद्धः
 शरेण वै ॥ ३३ ॥ मद्युम्नशरपातेन तत् सैन्यं विमुखी कृतम् ।
 शम्बरस्य तथाभ्यासे स्थितं संहृत्य भीतवत् ॥ ३४ ॥ स्ववलं
 चिद्रुत दृष्ट्वा शम्बरः क्रोधमूर्च्छितः । आज्ञापयामास तदा सचि-
 वान् दानवेश्वरः ॥ ३५ ॥ गच्छद्वयं मन्त्रियोगेन प्रहरध्वं रिपोः
 सुतम् । नोपेक्षणीयः शत्रुर्वै वध्यतां क्षिप्रमेव वै ॥ ३६ ॥ उपेक्षित
 इव व्याधिः शरीरं नाशयेद् ध्रुवम् । तदेव दुर्मतिः पापो वध्यतां
 मत्पियेष्वपि ॥ ३७ ॥ तनस्ते सचिवाः क्रुद्धाः शिरसा शृणु शास-
 नम् । शरवर्षं विमुञ्चन्तम्वरिता नोदयन्थान् ॥ ३८ ॥ तान् दृष्ट्वा
 धावनः संख्ये क्रुद्धो मकरकेतनः । चापमृद्यम्य संभ्रान्तस्तस्थौ
 ममुत्ततो वली ॥ ३९ ॥ दुर्द्धरं पंचविंशत्या शरैः सन्नतपर्वभिः ।

की सिद्धहस्त पुरुषकी सगान काट डाला ॥३२॥ फिर मद्युम्न
 ने जो धनुष उठा कर बाणोंकी वर्षाकी तो सेनामें ऐसा कोई न
 बचा जो मद्युम्नके बाणोंसे घायल न हुआ हो ॥३३॥ मद्युम्नके
 बाणोंसे वह सेना विमुख हो गई और शम्बरके पासकी सेना भी
 डरी हुई सी ही (लड़ना) छोड़ कर शम्बरके पास ही खड़ी
 रही ॥३४॥ अानी सेनाकी भागती हुई देखकर शम्बर क्रोधमें
 भर गया और उस दानवराजने क्रोधमें भरकर मन्त्रियोंको आज्ञा
 दी ॥ ३५ ॥ कि-तुम मेरी आज्ञासे बढ़ो और शत्रुके पुत्र पर
 महार करो, शत्रुकी उपेक्षा न करनी चाहिये इससे शीघ्र ही मार
 डालो २६ यह लापरवाही करनेमें व्यथिका सगान शरीरको
 नष्ट ही कर डालेगा ३७ तदनन्तर वे मन्त्री क्रोधमें भर गए और
 शामनको शिर पर धारण कर बाणोंकी वर्षा करते हुए फुर्तीसे
 रणोंको बढ़ाने लगे । ३८ । उनको युद्धमें दीड़ना हुआ देख कर
 मकरकेतन-प्रद्युम्न क्रोधमें भर गया तब वह बलवान् अपने
 तान का सामने खड़ा होगा ३९ महातेजस्वी मद्युम्नने दुर्धर

विभेद सुमहातेजाः केतुमालि निषष्टिभिः ॥ ४० ॥ सप्तत्वा शनु
 हन्तारं अशीत्या तु ममर्दनम् । विभेद परमागर्षी रुक्मिण्याः नांदि
 वर्धनः ॥ ४१ ॥ ततस्ते अचिन्ताः क्रुद्धाः प्रद्युम्न शरघृष्टिभिः ।
 एकैकशो विभेदार्जा पृष्टिभिः पृष्टिभिः शरैः ॥ ४२ ॥ तानमाह्वान
 शरान् वाणैश्चिच्छेद मकरध्वजः । ततोर्द्धचन्द्रमार्दाय दुर्द्धरस्य स
 सारधिम् ॥ ४३ ॥ जघान पश्यता राज्ञां सर्वेषां सैनिकस्य वै ।
 चतुर्भिरथ नाराचैः सुपर्षैः कंरुतेजितैः ॥ ४४ ॥ जघान चतुरः
 सोश्वान् दुर्द्धरस्य रथं मति । एकेन योक्रं वृषं च ध्वजमेकेन बंधु-
 रम् ॥ ४५ ॥ पृष्ट्या च युगचक्रात् चिच्छेद मकरध्वजः । अथा-
 परं शरं गृह्य कंकपत्रं सुतेजितम् ॥ ४६ ॥ सुभोच हृदये तस्य दुर्द्धर-
 स्यान्वजीविनः । स गतासुर्गतश्रीको गतसत्त्वो गतगणः ॥ ४७ ॥

को पचीत वाणोंसे घायल किया और केतु मालीको तरेसठ वाणों
 से घायल किया ४० तदनन्तर रुक्मिणीके आनन्दको बढ़ाने वाले
 परमक्रोधमें भरे हुए प्रद्युम्नने सत्तर वाणोंसे शनुहन्तारको और
 बपासी वाणोंमें ममर्दनको घायल किया ४१ तदनन्तर वे मन्त्री
 क्रोधमें भर कर प्रद्युम्न पर वाणोंकी वृष्टि करने लगे; उनमेंसे
 प्रत्येकने प्रद्युम्नके साठ २ वाण मारे ४२ मकरध्वज प्रद्युम्नने उन
 वाणोंको आनेसे पहिले ही काट डाला, तदनन्तर उसने सब
 राजाओंके और सैनिकोंके सामने सुन्दर गाँठ वाले कंक पत्तीके
 पर लगे तेज किये हुए चार वाणोंसे दुर्द्धरके सारधियों मार
 डाला ॥ ४४ ॥ और चार वाणोंसे दुर्द्धरके चारों घोड़ोंमें भी
 मार डाला तदनन्तर मकरध्वजने एक बाणसे उसके जोतषो वृत्र
 को ध्वजाको और एक वाणसे उसके बंधुरको काट डाला और
 साठ वाणोंसे उसके जुए और पहियेके चन्द्रको काट डाला, तद-
 नन्तर कंकपत्र लगा हुआ दूसरा वाण ले कर दूमरेसे जीवित
 रहने वाले दुर्द्धरके हृदयके फोड़ डाला वह प्राणरहित, शोभा

निगपात रथोपस्थात् क्षीणपुण्य इव ग्रहः । दुर्दरे निहते शूरे दानवे
दानवेश्वरः ॥ ४८ ॥ केतुमाली शरनातैरभिदुद्राद् कृष्णजम् ।
प्रद्युम्नमथ सकुटो भ्रुकुटीभीषणाननः ॥ ४९ ॥ कृत्वाभ्यधावत्
सहसा तिष्ठ तिष्ठेत चावधीत् । संकुद्रः कृष्णसूनुस्तु शरवर्षैरवा-
फिरत् ॥ ५० ॥ पर्वतं चारिभाराभिः प्राहृषीव यथा घनः । स
विद्रो दानवामात्यः प्रद्युम्नेन धनुष्मता ॥ ५१ ॥ चक्रमादाय चिक्षेप
प्रद्युम्नवपकांजया । तं तु प्रापं सहस्रारं कृष्णचक्रसमद्युनिम् ५२
निगत्योत्पत्य सहसा सर्वेषामेव परगताम् । तेनैव तस्य चिक्षेद
केतुमालेः शिरसादा ॥ ५३ ॥ तद् दृष्ट्वा कर्म विपुलं रौक्मिण्येगस्य
देवराट् । विस्मयं परमं प्रापः सर्वदेवगणैः सह ॥ ५४ ॥ गन्धर्वा-
प्सरसश्चैव पुष्पवर्षैरवाफिरन् । केतुमालिं हतं दृष्ट्वा शत्रुहन्ता

रहित सत्त्व रहित और फीकी कान्ति वाला । होकर पुण्य
क्षीण हुए ग्रह की समान रथकी बैठक परसे गिर पड़ा शूरवीर
दानव दुर्धरके मारे जाने पर दानवेश्वर केतुमाली क्रोधमें भर
भ्रुकुटिके कारण मुखको भयांकर कर कृष्णके पुत्र प्रद्युम्न पर
बाणोंकी वर्षा बरसाता हुआ दौड़ा ॥ ४५-४९ ॥ वह दौड़ कर
कहने लगा कि-ठहर ! ठहर ! तन क्रोधमें भरे हुए कृष्णपुत्रने
उसरो बाणोंसे इस प्रकार ह्वा दिया, जिस प्रकार वर्षाकालमें
मेघ मूल धारोंसे पृथ्वीको ह्वा लेता है धनुषधारी प्रद्युम्नसे
घायल होने पर दानवने चक्र उठा लिया और प्रद्युम्नका वध
करने की इच्छासे फैंका, कृष्णके चक्रकी समान कान्ति वाले
और सहस्र अरे वाले उस चक्रके शाने पर प्रद्युम्नने उछलकर
और झुक कर उसको पकड़ लिया और उस ही चक्रसे केतु
मालीके शिरको काट डाला ॥ ५०-५३ ॥ प्रद्युम्नके इस
बड़े भारी कर्मका देश कर देवराज सब देवताओं सहित परम
विस्मित हुआ ॥ ५४ ॥ और गन्धर्व तथा अप्सरायें पुणोंकी

ममर्दनः । महाबलसमूहेन मधुम्नमथ द्रुपे ॥५५॥ ते गदा मुशलं
 चक्रं प्रासतोमरसायकान् । निन्दपालान कुठारांश्च भास्वरान्
 कूटमुद्गरान् ॥५६॥ युगपत् संचिपन्नि स्मं वधार्थं कृष्णनन्दने ।
 सोपि तान्भ्रजालानि शस्त्रजालैरनेकधा ॥५७॥ चिच्छेद बहुधा
 वीरो दर्शयन् पाणिलाचनेम् । गजान सोऽभ्यहनत् क्रुद्धो गजा-
 रोष्ठान् सहस्रशः ॥ ५८ ॥ रथान सारथिभिः सार्द्धं हयैश्चैव
 ममर्द ह । पातगंस्तान् शरव्रोत्तेर्नोविद्धः कश्चिदीक्षते ॥ ५९ ॥
 एवं सर्वाणि सैन्यानि ममन्थ मकरध्वजः । जदीं प्रावर्तयद्दीर्घां
 शोणिताम्पुतरङ्गिणीम् ॥ ६० ॥ मुक्ताहारोर्विचहुला वसामेदो-
 स्त्रिपङ्क्तिनीम् । ऋत्रद्वीपेशरोवर्ती रथैः पुलिनमण्डिताम् ॥ ६१ ॥
 केयूरकुण्डलाङ्गुली ध्वजमस्त्यत्रिभूपिताम् । नागग्राहवती रौद्रीं

बौद्धार करने लगी केतुमालिको मारा हुआ देख कर शत्रुओंका
 मारने वाला मगर्दन बड़ी भारी सेनाको लेकर, मधुम्न पर
 दीहा ॥ ५५ ॥ वे वध करनेकी; इच्छासे कृष्णनन्दनके ऊपर
 गदा मुसल चक्र प्रास तोमर बाण निन्दपाल कुठार और प्रकाश-
 वान् कूटमुद्गरोंको एक साथ फेंकने लगे तब वह वीर भी हाथकी
 सफाई दिखाता हुआ उन अस्त्रजालोंको अपने अस्त्रजालोंसे
 अनेक प्रकारसे काटने लगा, उसने क्रोधमें भर कर हाथियोंको
 मार डाला ॥५६-५८॥ और उसने रथोंके साथ सारथियोंको
 और घोड़ोंको भी गिरा; कर मसल डाला उस समय कोई भी
 व्यक्ति बाणोंके जालोंसे बिना घायल हुआ नहीं दीखता था
 इस प्रकार मकरध्वजने सारी सेनाओंको मथ डाला, और
 रक्तके पूर और तरंग वालो भयंकर नदी बहा दी ॥ ६० ॥
 उसमें मोतियोंकी हाररूपी बहुतसी लहरें थी और वसा तथा मेद
 की कीच मच रहीं थी; छत्र तहाँ पर द्वीपसे दीख रहे थे और
 बाणोंके भ्रमर पड़ रहे थे और रथोंसे उसके पुलिन मण्डित हो रहे

मत्स्यकूर्पविभूषिताम् ॥ ६२ ॥ केशशैवलसंघन्नां श्रोणिमूत्रमृणालिका-
 लिकाम् । नगाननसुपद्मां च हंसचापरवीजिताम् ॥ ६३ ॥ शिर-
 स्तिमितमाकीर्णां शोणितौघपवनिनीम् । नदीं दुस्तरणीं गीमा-
 मन्गेन पवर्तिताम् ॥ ६४ ॥ दुष्प्रेक्ष्यां दुर्गमां रौद्रां हीनतेजःसुदु-
 स्तराम् । शस्त्रग्राहयन्तीं घोरां यमराष्ट्रविवर्द्धनीम् ॥ ६५ ॥ तत्र
 रुक्मिणसुतः श्रीमान् विलोडयति धन्विनः । शत्रुहन्तारमाश्रित्य
 शरानभ्यक्तिरन् बहून् ॥ ६६ ॥ शत्रुहन्ता पुनः क्रुद्धो मुपो च शर-
 मुत्तपम् । मधुम्नस्य सगासाद्य हृदये, निपपात ह ॥ ६७ ॥ स
 विद्धस्तेन बाणो न मधुम्नो न व्यकम्पत । शक्तिं मग्राह चलवान्
 शत्रुहन्त्रे मुमूर्षवे ॥ ६८ ॥ सा क्षिप्त्वा रौक्मिणोयेन शक्तिर्ज्वाला-
 कुला रणे । पपात हृदयं भित्त्वा शकाशनिसमस्पर्शा ॥ ६९ ॥

धे ६१ केयूर और कुण्डलरूपी कछुप वाली और ध्वजारूपी
 मत्स्योसे विभूषित, हाथीरूपी ग्राह वाली, भगङ्कुर, मत्स्य और
 कछुओसे विभूषित केशरूपी सिंघारसे ढकी हुई, श्रोणिमूत्र
 (कमरबन्द) रूपी मृणाल वाली मनुष्योंके मुखरूपी सुन्दर कमलों
 वाली, हंसरूपी चापरोसे वीजित, शिररूपी मछलियोंसे घिरी हुई
 और जलरूपी रक्तके समूहको बहानेवाली अनङ्गसे बहाई भयं-
 कर दुस्तर दुष्प्रेक्ष्य दुर्गम रौद्र और तेजहीनोंके लिए दुष्प्रेक्ष्य,
 शस्त्ररूपी ग्राह वाली यमराष्ट्रको बहानेवाली दुस्तर मधुम्नने नदी
 बहा दी ६५ उसमें श्रीमान् रुक्मिणीपुत्र धनुषपारियोंका मग्य रहे
 थे और उस शत्रुहन्ता पर बहुतासे बाणोंको बरसाने लगे ६६
 तदनन्तर शत्रुहन्ताने क्रोधमें भर कर फिर उत्तम बाण उठा कर
 छोड़ा वह मधुम्नके हृदय पर गिरा ६७ उससे विघने पर भी
 मधुम्न नहीं कांपा और उन्होंने मुमूर्षु शत्रुहन्ताके लिए शक्ति
 उठा ली ६८ रुक्मिणीनन्दनकी फैंकी हुई वह ज्वालाओंसे व्याप्त
 इन्द्रके वज्रकी समान शक्ति उसके हृदयको फोड़ कर गिरगड़ी ६९

स भिन्नहृत्च सूस्तांगो मुक्तमर्णास्थिवन्मनः । पपात रुधिराद्वारी
 शत्रुहन्ता महाबलः ७० पतितं शत्रुहन्तार दृष्ट्वा तस्मै ममर्दनः ।
 जडाह मुशल सोध वचनं चेदमाददे ॥ ७१ ॥ तिष्ठ किं प्राकृतै-
 रेभिः करिष्यसि रणविषः । मां योधयस्व दुर्बुद्धे ततस्त्वं न
 भविष्यसि ॥ ७२ ॥ वृष्णिचक्रकुले जातः शत्रुरस्पतिपता तव ।
 पुत्रं हन्तास्म्यहं तस्य ततोसौ निहतो भवेत् ॥ ७३ ॥ मृतेन तेन
 दुर्बुद्धे सर्वदेवतयो भवेत् । दैतेया दानवाः सर्वे मोदन्ता इत-
 शत्रवः ॥ ७४ ॥ इते स्वैभि ममास्ते ए त्वत्समुत्थैश्च शोणितैः ।
 शम्बरस्य तु पुत्राणां करोम्युदकसत्क्रियाम् ॥ ७५ ॥ अद्य सा
 भीष्मकसुता करुणं विलपिष्यति । निहतं त्वां च श्रुत्वैव यौवन-
 स्थं गतायुगम् ॥ ७६ ॥ स ते पिता चक्ररौ निष्फलाशो भवि-
 ष्यति । इत त्वां स विदित्वाथ प्राणांस्तपस्यति मन्दधीः ॥७७॥

जिसका हृदय फटागया था और अङ्ग थक रहा था और जिसके
 गर्मस्थल तथा हड्डिङ्गोंके बन्धन ढीले पड़ गए ऐसे महाबली
 शत्रुहन्ताको गिरते देख कर ममर्द । खड़ा हुआ और उसने मूसल
 को पकड़ कर यह बात कही, कि-७१ हे रणविष ! तू इन साधा-
 रण व्यक्तिोंसे क्या करेगा ? हे दुर्बुद्धे तू मुझसे लड़ तो तू
 नहीं रहेगा ७२ हमारे शत्रु तेरे पिता वृष्णिचक्रकुले उत्पन्न हुए हैं
 मैं उनके पुत्रका मार डालूँगा तो मानो जाऊँ ही मार डालूँगा
 हे दुर्बुद्धे ! उसके मरनेसे सब देवताओंका जप होजायगा और
 सब दैतेय और दानव शत्रुओंके मरनेसे आनन्द करेंगे ७४ अपने
 अस्त्रसे तेरे मारने पर तुझसे निकलते हुए रक्तसे मैं शम्बर
 के पुत्रोंका तर्पण करूँगा ७५ आज तुझ तरुण पुरुषको गतायु
 सुनकर भीष्मककी पुत्री करुणाजनक रीतिसे विलाप करेगी ७६
 और तुम्हारे पिता चक्रधरकी आशा आज निष्फल होजायगी

इत्युक्त्वा परिघेणाशु ताडयद्रुक्मिणीसुतम् । ताडितो हि गदा-
तेजा रौक्मिणोऽथः प्रतापवान् ॥ ७८ ॥ दोर्भ्यामुत्तिष्ठ्य तस्यैव
रथ गद्वां व्यचूर्णयत् । सोऽवप्लुत्य रथात्तस्मान् पदातिरव तस्मि-
वान् ॥ ७९ ॥ तां गदां गृह्य सहसा रौक्मिणोऽमुपाद्रवत् । तथैव
गदया कामः प्रमर्दनमपोथयत् ॥ ८० ॥ इतं प्रमर्दनं दैत्यं दृष्ट्वा
सर्वे मदुद्रुतुः । न शक्ताः प्रमुखं स्थातुं सिंहत्रासाद्गजा इव ॥ ८१ ॥
सारमेय यथा दृष्ट्वाऽविगणो वै पलायते । तथा सेना विपीदन्ती
मद्युन्नस्थ भयार्दिता ॥ ८२ ॥ क्षतजादिग्धवस्त्रा वै मुक्तकेशा
विशोभना । रजस्वलोऽप्युन्नती सेना समवगूढते ॥ ८३ ॥ मदन-
शरविभिन्ना सैनिकानभ्ययायद्युन्नतिसदृशश्रेया साध्वसैः पीडय-

वह मन्दबुद्धि तुम्हको माराहु मा जानकर अपने माणोंको छोड़
देगा ७७ इस प्रकार कहकर उसने रुक्मिणी-पुत्रके ऊपर परिघ
का पहार किया प्रतापी रुक्मिणी-पुत्रने ताडित होने पर उसके
रथको दोनों हाथोंसे उठा कर पृथिवीपर पटक दिया तब वह
उस रथसे कूद कर पैदल ही, खड़ा होगया । ७८ । ७९ । और
गदाको उठाकर रुक्मिणीपुत्रके ऊपर दौड़ा और मद्युम्नने उस
गदासे प्रमर्दनको मारहाला ८० प्रमर्दन दैत्यको माराहुआ देख
कर सब राक्षस भागने लगे और जैसे सिंहके पास हाथी खड़े
नहीं होते इसीप्रकार वह उसके सागने खड़े नहीं होसके ॥ ८१ ॥
जैसे (शिकारी) कुत्ते का देखकर भेड़ें भागने लगती है इसी
प्रकार मद्युम्नके भयसे पीड़ित हुई मैना विपाद करने लगी ८२
सेना रक्तसे सने हुए वस्त्रवाली खुले हुए केशों वाली रजस्वला
स्त्रीकी समान दीग्वने लगी ८३ मदनके बाणोंसे पीड़ित हुई
युवतीकी समान वेप धारण करने वाली निर्दयबाणोंसे पीड़ित
समररूपी रति सगरने। देवना न चाहकर अपने घरको जाना

गाना । रतिसपरमशक्ता चीन्हितुं सोच्छसन्ती स्वगृहमगनकामानेच्छते स्थातुमत्र ॥ ८४ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे निष्णुगर्षणि शम्बरसैन्य-
भंगो नाम पंचाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥

वैशम्पायन उवाच ॥ शम्बरस्तु ततः क्रुद्धः सूतमाह विशा-
पते । शत्रुमुखतो वीर, रथं मे वाहय द्रुमम् ॥ १ ॥ यावदेनं शरै-
र्हन्मि गम निप्रियकारकम् । ततो भर्तृवचः श्रुत्वा सूतस्तत्प्रिय-
कारकः ॥ २ ॥ रथं संचोदयामास चापीकरविभूषितम् । तं दृष्ट्वा
रथमायान्तं प्रद्युम्नः फुल्ललोचनः ॥ ३ ॥ सन्दधे चापमादाय
शरं कनकभूषितम् । तेनाह्वयत् सुसंकुद्धः कोपयन् शम्बरं रणेऽ
हृदये ताडितस्तेन देवशत्रुः सुषिक्लवः । रथशक्तिं समाश्रित्य
तस्यौ सोध विचेतनः ॥ ५ ॥ स चेतनां पुनः माप्य धनुरादाय

चाहने लगी थीर उसने तहाँ खड़े होनेकी इच्छा नहीं की ॥ ४ ॥
एकसौ पौँचवें अध्याय समाप्तः ॥ १०५ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि—हे राजन् ! उस समय क्रोधमें भरे
हुए शम्बरने सूतसे, कहा, कि—हे वीर ! तू मेरे रथको शीघ्रतासे
शत्रुके, रथके सामने लेवल ॥ १ ॥ मैं इस अपना अप्रिय करने
वालेको बाणोंसे मार डालूँगा उस समय स्वामीके वचनको सुन
कर उसका प्रिय करना चाहने वाला सूत, चापीकरोंसे अर्थात्
चमरोंसे विभूषित रथको हाँकने लगा उस-रथको आता हुआ
देख कर प्रद्युम्नके नेत्र खिल उठे ॥ २ ॥ ३ ॥ उसने धनुषको
उठाकर सुवर्णसे विभूषित बाणको चढ़ाया और क्रोधमें भरकर
शम्बरको कुपित करनेके, लिये वह बाण छोड़ा । ४ ॥ उसके हृदय
में लगने पर देवशत्रु बहुत घबड़ाया रथके उस्ताहकी हेतु ध्वजा
का आश्रय करके मूर्च्छित होगया ॥ ५ ॥ तदनन्तर जब शम्बर
को होश आया तब उसने क्रोधमें भरकर धनुष उठा लिया और

शम्बरः । विद्याध काष्णि कुपितः सप्तभिर्निशितैः शरैः ॥६॥
तानमाप्तन् शरान् सोऽथ सप्तभिः सप्तधाच्छिनत्।शम्बरं च जघा
नाथ सप्तत्या निशितैः शरैः॥७॥ पुनः शरसहस्रेण कंकवर्हिण-
वाससा । अहनञ्चम्बर क्रोधाद्दाराभिरिव पर्वतम् ॥८॥ मदिशो
विदिशश्चैव शरधारा समावृणोत् ॥ ९ ॥ अन्धकारीकृतं व्योम
दिनकर्ता न दृश्यते । ततोऽंधकारमुत्सार्य वैद्युतास्त्रेण शम्बरः १०
प्रद्युम्नस्य रथोपस्थे शरवर्षं मुनोच ह । तदस्त्रजालं प्रद्युम्नः
शरेणानतपर्वणा ॥११॥ चिच्छेद् बहुधा राजन् दर्शयन् पाणि-
लाघवम् । इते तस्मिन् महावर्षे शराणां कार्ष्णिना तदा ॥१२॥
द्रुमवर्षं मुनोवाथ मागया कालशम्बरः।द्रुमवर्षोच्छ्रुतं दृष्ट्वा प्रद्युम्नः
प्रद्युम्नके सात तेज बाण मारे ।६। परन्तु प्रद्युम्नने उन बाणोंको
अपने पास आनेसे पहिले सात बाण मार कर उनके सात २
दुकड़े कर दिये और फिर शम्बरके भी सत्तर बाण मारे ॥७॥
तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए प्रद्युम्नने धाराओंसे पर्वतको छानेकी
मगान, शम्बर पर कंक और मोरके पत्र लगे हुए हजार बाण
मारे ॥ ८ ॥ उस समय बाण-धाराओंसे दिशा और विदिशा
(कोण) छा गई (फिर भी) प्रद्युम्न बाणवारा बरसा कर दिशा
विदिशाओंको छाने लगा ॥९॥ ऐसा करके प्रद्युम्नने आकाश
में अंधकार कर दिया, उस समय सूर्यका दीखना बन्द होगया
तब तो शम्बरने वैद्युतास्त्रसे अन्धकारको हटा कर ॥ १० ॥
प्रद्युम्नके रथ पर बाणोंकी वर्षा की, हे राजन् ! उस समय
प्रद्युम्नने लगी हुई गाँठ वाले बाणसे उस बाण-जालको अनेक
प्रकारसे काट कर अपने हाथकी सफाई दिखाई, जब प्रद्युम्नने
बाणवर्षाको नष्ट कर डाला ॥ ११॥१२ ॥ तब तो कालशम्बर
माथा करके वृत्तोंकी वर्षाने लगा, वृत्तोंकी बौद्धारको बढ़ती हुई
देखकर प्रद्युम्न क्रोधमें भर गया ॥ १३ ॥ और उसने आग्ने-

क्रोधमूर्च्छितः ॥ १३ ॥ आग्नेयास्त्रं मुनीनाथ तेन वृक्षाननाश-
यत् । भस्मीभूते वृक्षवर्षे शिलासंघातमुत्सृजत् ॥ १४ ॥ प्रद्युम्नस्तं
तु वायव्यैः प्रोत्सारयत् संयुगे । ततो मायां परां चक्रे देवशत्रुः
प्रतापवान् ॥ १५ ॥ सिंहान् व्याघ्रान् पराहारन तरङ्गवृक्षवा-
नरान् । वारणान् वारिदप्रख्यान ह्यानृष्टान् विशाम्पते ॥ १६ ॥
मुमोव धनुरायाम्प प्रद्युम्नस्य रथोपरि । गन्धर्वास्त्रेण विच्छेद
सर्वास्तान् खण्डशस्तदा ॥ १७ ॥ प्रद्युम्नेन तु मा गाया हता तां
वीक्ष्य शम्बरः । अन्यां मायां मुनीनाथ शम्बरः क्रोधमूर्च्छितः १८
गजेन्द्रान् भिन्नवदनान् षष्टिहायनयौवनान् । महामात्रोत्तमास्त्र-
दान् कल्पितान् रणकोविदान् ॥ १९ ॥ नामापतन्तीं मायां तु
कार्ष्णिणः कपललोचनः । सैहीं मायां समुत्सृष्टुं चक्रे बुद्धिं महा-
मनाः ॥ २० ॥ सा सृष्टा सिद्धमाया तु रौक्मिण्येन धीमता ।

यास्त्र छोड़ कर वृक्षोंको नष्ट कर दिया, वृक्षवर्षाके भस्म होने
पर शम्बरने पत्थरोंको फेंका ॥ १४ ॥ प्रद्युम्नने उनको वायव्य
अस्त्र मार कर रणमेंसे उड़ा दिया, तब तो प्रतापी देवशत्रुने
बड़ी भारी माया दिखाई, कि-॥ १५ ॥ वह अपने धनुषको तान
कर प्रद्युम्नके रथके ऊपर सिंह व्याघ्र बराह रीछ वानर चीते और
मेघोंकी समान हाथी और ऊँटोंको फेंकने लगा, परन्तु प्रद्युम्न
ने गान्धर्व अस्त्रसे उस मायाके टुकड़े २ कर डाले ॥ १६ ॥ १७ ॥
इस प्रकार प्रद्युम्नने उम मायाको नष्ट कर दिया, उस मायाको
नष्ट हुई देख कर शम्बरने रथमें भर कर दूसरी माया रची १८
(उस मायासे वह प्रद्युम्नकी ओर) साठ वर्षके युवा खुले हुए
मुख वाले हाथियोंको (भेजने लगा, उन पर) चतुर हाथीवान्
बैठे हुए थे और वे रणचतुर पुरुषोंसे सत्राये हुए (दीखते थे)
उस मायाको आती हुई देख कर कपलकी समान नेत्रों वाले
महामनस्वी प्रद्युम्नने सैही माया रचनेका विचार किया १९-२०

माया नागवती नष्टा आदित्येनेव-शर्वरी ॥ २१ ॥ निहतां हस्ति-
 मायां तु तां समीच्य महासुरः । अन्यां संपोहिनीं मायां सोसृज-
 हानवोत्तमः ॥ २२ ॥ तां दृष्ट्वा मोहिनीं नाम मायां गयविनिर्मि-
 ताम् । संज्ञास्त्रेण तु प्रद्युम्नो नाशयामास वीर्यवान् ॥ २३ ॥
 शम्बरस्तु ततः क्रुद्धो हतया मायया तदा । सैही मायां महातेजाः
 सोसृजहानवेश्वरः ॥ २४ ॥ सिंहानापततो दृष्ट्वा रौक्मिण्येयः
 प्रतापवान् । अस्त्रं गान्धर्वमादाय शरभानसृजत्तदा । तेऽष्टापदा
 बलौदग्रा नखदंष्ट्रायुधा रणे ॥ २५ ॥ सिंहान् विद्रवयामासुर्वायु-
 र्जलधरानिव । सिंहान् विद्रवतो दृष्ट्वा माययाष्टापदेन वै ॥ २६ ॥
 शम्बरश्चिन्तयामास कथमेनं निहन्ति वै । अहो-मूर्खस्वभावोहं
 यन्मया न हतः शिशुः ॥ २७ ॥ प्राप्तवौवनदेहस्तु कृतास्त्रश्चापि

बुद्धिमान् प्रद्युम्नने जब सिंहमाया रची तब हाथियोंकी माया सूर्य
 से नष्ट होने वाली रात्रिकी समान नष्ट होगई । २१। दानवोत्तम
 ने हस्ति मायाको नष्ट हुई देख कर मोहिनी नाम वाली दूसरी
 माया रची । २२। उस मायावी दैत्यकी बनाई हुई मोहिनी, नाम
 वाली मायाको देख कर वीर्यवान् प्रद्युम्नने उसका संज्ञास्त्रसे
 नाश कर डाला ॥ २३ ॥ उस मायाके नष्ट होने पर शम्बर रोप
 में भर गया और उस दानवोत्तमने सैही माया रची ॥ २४ ॥
 प्रतापी रुक्मिणीनन्दनने सिंहोंको आते देख कर गंधर्व-अस्त्र
 उठा कर शरभोंको रचा, उनके आठ पैर थे वे बलवान् थे और
 उनके नाखून और डाढ़रूपी शस्त्र थे, वायु जैसे मेघोंको भगाता
 है, तैसे वे सिंहोंको भगाने लगे, अष्टापदी मायासे सिंहोंको भागते
 देख कर ॥ २५ ॥ २६ ॥ शम्बर विचारने लगा, कि-मैं इसको
 कैसे माऊँ, अरे ! मैं बड़ा मूर्ख—स्वभाव हूँ कि-मैंने इसे बालक
 पनमें ही न मार डाला ॥ २७ ॥ अब तो यह दुर्मति तरुण हो
 गया है और इसने अस्त्र-विद्या भी सीख ली है अब मैं इस

दुर्पतिः । तत्कथं निहनिष्यामि शत्रुं रणशिरःस्थितम् ॥ २८ ॥
 माया सा तिष्ठते तीव्रा पन्नगी नाम भीषणा । दत्ता मे देवदेवेन
 हरिणासुरघातिना ॥ २९ ॥ तां सृजामि महामायागाशीविपसमा-
 कुलाम् । तथा दहते दुष्टात्मा ह्येष मायामयो बली ॥ ३० ॥ सा
 सृष्टा पन्नगी माया विषज्ज्वालासमाकुला । तथा पन्नगमय्या तु
 सरथं सहवाजिनम् ॥ ३१ ॥ समूतं स हि प्रद्युम्नं बबन्ध शर-
 बन्धगैः । बध्यमानं तदा दृष्ट्वा आत्मानं वृष्णिधंशजः ॥ ३२ ॥
 मायां सञ्चिन्तयामास सौपर्णी सर्पनाशिनीम् । सा चिन्तिता
 महामाया प्रद्युम्नेन महात्मना ॥ ३३ ॥ सुपर्णा विचरन्ति स्म
 सर्पा नष्टा महाविपाः । भग्नायां सर्पमायायां प्रशंसन्ति सुरा-
 सुराः ॥ ३४ ॥ साधु वीर महाबाहो रुक्मिण्यानन्दवर्धनः । यत्त्वया
 धर्षित्वा माया तेन स्म परितोषिताः ॥ ३५ ॥ हतायां सर्पमायायां
 रणके मुहानेपर खड्गेहुण्को कैसे मारूँ २८ हाँ मुझे देवदेव असुर-
 घाती महादेवजीने पन्नगी नाम वाली अतितीव्र माया दी है वह
 माया मुझमें वर्तमान है २९ उस पन्नगीसे भरी हुई महामायाको अब
 मैं रचूँ, उस मायासे यह बली-दुष्टात्मा भस्म होजायगा ३० ॥
 इस प्रकार उसने विपकी ज्वालाओंसे भरी हुई पन्नगी माया
 रची, उस पन्नगमयी मायासे वह हाथी रथ और सूतसहित प्रद्युम्न
 को बाँधने लगा, उस समय वृष्णिनन्दनने अपनेको बँधता हुआ
 देख कर, सौपर्णी नाम वाली सर्पनाशिनी मायाका विचारकिया,
 महात्मा प्रद्युम्नके विचार करने पर वह माया प्रकट होगई ३१-३३
 उस समय सुपर्ण (गरुड़) विचरने लगे और महाविप सर्प नष्ट
 होने लगे, सर्पमयी मायाके नष्ट होने पर सुर असुर (प्रद्युम्न
 की) प्रशंसा करने लगे ॥ ३४ ॥ हे रुक्मिणीके आनन्दको बढ़ा
 ने वाले महाशुन प्रद्युम्न ! साधु २ तुमने मायाको दबा कर हमें
 प्रसन्न किया है ॥ ३५ ॥ सर्पमायाके नष्ट होने पर शम्बर फिर

शम्बरश्चिन्तयत् पुत्रः । अस्ति मे कालदण्डाभो मुद्गरो हेम-
भूषितः ॥ ३६ ॥ तमप्रतिहतं युद्धे देवदानवमानवीः । पुरा यो
मम पार्वत्या दत्तः परमत्पुत्रः ॥ ३७ ॥ शृढाण शम्बरं त्वं
मुद्गरं हेमभूषितम् । मया सृष्टं स्वदेहे नै तपः परमदुश्चरम् । ३८
मायान्तकरणं नाम सर्वासुरविनाशनम् । अनेन दानवी रोद्रौ
बलिनौ कामरूपिणौ ॥ ३९ ॥ शुम्भश्चैव निशुम्भश्च सगणौ सृदिता
मया प्राणसंशयमापन्ने त्वया मोक्ष्यः स शत्रवे ॥ ४० ॥ इत्युक्त्वा
पार्वती देवी तत्रैवान्तरधीयत । तदहं मुद्गरं श्रेष्ठं मोचयिष्यामि
शत्रवे ॥ ४१ ॥ तस्य विज्ञाय चित्तं तु देवराजोऽभ्यभाषत । मच्छ
नारद शीघ्रं त्वं मशुम्नस्य रथं गति ॥ ४२ ॥ सम्बोधय महाबाहुं
पूर्वजातिं च गोक्षय । वैष्णवास्त्रं प्रयच्छ्यास्मै वधार्थं शम्बरस्य

चिन्तारने लगा, कि-मेरे पास कालदण्डकी समान आभा वाला
सुवर्णसे विभूषित मुद्गर है ॥ ३६ ॥ वह युद्धमें देवता दानव और
मनुष्यों अतिहत रहता है, पार्वतीने परमसन्तुष्ट होकर उसे मुझे
दिगा था ॥ ३७ ॥ कि हे शम्बर! तु इस सुवर्णसे विभूषित दण्ड
को ग्रहण कर मैंने अपने देहसे परम तप कर इसको रचा है ३८
इसका नाम मायान्तकरण है और यह सब असुरोंको मार सकता
है, मैंने इससे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले शुम्भ और
निशुम्भ नामक भयंकर राक्षसोंको मारा था, तू इसे प्राणसंकट
पड़ने पर शत्रु पर छोड़ना ॥ ३९ ॥ ४० ॥ इस प्रकार कह कर
पार्वती देवी अन्तर्धान होगई थी अब मैं इस श्रेष्ठ मुद्गरको शत्रु
पर छोड़ना हूँ ॥ ४१ ॥ उसके चित्तके अभिप्रायको जान कर
देवराजने कहा. कि-हे नारद ! तूग शीघ्रही मशुम्नके रथकी
ओर जाओ ॥ ४२ ॥ और उनको सम्बोधित करके इनकी पूर्व-
जानिका स्मरण दिलाओ, और शम्बरका वध करनेके लिए इन
को वैष्णवास्त्र दे ॥ ४३ ॥ और इस असुरसूदनको अभेद्य कवच

च ॥ ४३ ॥ अभेद्यं कवचं चास्य प्रगच्छासुरसूदने । एवमुक्तो
 मधवता नारदः प्रययौ त्वरन् ॥ ४४ ॥ आकाशोऽधिष्ठितोऽवोच-
 न्मकरध्वजकेतनम् । कुमार पश्य मां प्राप्तं देवगन्धर्वनारदम् ।
 प्रेषितं देवराजेन तर संबोधनाय वै ॥ ४५ ॥ स्मर त्वं पूर्वकं
 भावं कामदेवोऽसि मानदाहरकोपानलदग्धस्त्वितेनानङ्ग इहोच्यतेऽक्ष-
 त्वं वृष्णिवंशजातोऽसि रुक्मिण्या गर्भसंभवः । जातोऽसि वेश-
 वेन त्वं मधुम्न इति कीर्त्यते ॥ ४७ ॥ आहत्य शम्बरेण त्वमि-
 दानीतोऽसि मानद । सप्तराजो त्वसंपूर्णो सूतिकागारमध्यतः ४८
 च गार्थ शम्बरस्य त्वं हिममाणो क्षुपेक्षितः । वेशवेन महाबाहो
 देवकार्यार्थसिद्धये ॥ ४६ ॥ येषां मायावती न म भार्या वै शं-
 वरस्य तु । रतिं तां विद्धि कन्यायां तव भार्या पुरातनीम् ५०
 तव संरक्षणार्थाय शंवरस्य गृहेऽवसत् । मायां शरीरजां तस्य

दो, इन्द्रके इस प्रकार कहने पर नारदजी त्वराके साथ चले ४४ और
 आकाशमें स्थित होकर मकरध्वजसे कहने लगे कि—हे कुमार !
 तुम मुझ देवता और गन्धर्वोंके मित्र नारदके आया हुआ देखो,
 देवराजने तुमको प्रबोधित करनेके लिए भेजा है ४५ तुम पूर्व
 जन्मका स्मरण करो, हे मानद ! तुम कामदेव हो और शिवजी
 की कोपाग्निसे भस्म होनेके कारण अनङ्ग कहाते हो ४६ तुम
 रुक्मिणीके गर्भसे वृष्णिवंशमें उत्पन्न हुए हो, तुम वेशवसे उत्पन्न
 हुए हो और मधुम्न कहे जाते हो ४७ हे मानद ! तुमको सात
 रात पूर्ण होनेसे पहिले सूतिकागारमेंसे शंवर हर कर यहाँ पर
 लेआया है ४८ हे महासुन ! तुम्हारे हरणकी कृष्णने, शंवरके बध
 के कारण देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिए, उपेक्षाकी थी ४९
 वह जो शम्बरकी मायावती नामवाली भार्या है, इसको तुम अपनी
 रतिनामकी प्राचीन भार्या जानो ॥ ५० ॥ यह तुम्हारी रक्षा करने
 के लिए शंवरके घरमें रहती है, और इस दुरात्माको मोहित

मोहनार्थं दुरात्मनः ॥ ५० ॥ रतेः संपादनार्थाय प्रेषित्यनिजं
 तदा । एवं प्रद्युम्न बुध्वा वै तत्र भार्या प्रतिष्ठिता ॥ ५२ ॥
 हते त्वं शंभरे वीर वीष्णवास्त्रेण संयुगे । गृह्य मापावर्ती भार्या
 द्वारकां गन्तुमर्हसि ॥ ५३ ॥ गृहाण वीष्णवं चास्त्रं क्वचं च
 महाप्रभम् । शक्रेण तव संगृह्य प्रेषितं शत्रुसूदन ॥ ५४ ॥ शृणु
 मे ह्यपरं वाक्यं । क्रयतामविशंकया । अस्य देवरिपोस्तात्र मुद्गरो
 नित्यमूर्जितः ॥ ५५ ॥ पार्वत्यां परितुष्टायां दत्तः शत्रुनिवर्हणः ।
 अमोघश्चैव संग्रामे देवदानवमानवैः ५६ तदस्त्रप्रतिघातार्थं देवीं
 त्वं स्मर्तुमर्हसिस्तथ्या चैव नमस्यां च महादेवी रणोत्सुकैः ५७
 तत्र वै क्रियतां यत्नः संग्रामे रिपुणा सह । इत्युक्त्वा नारदो
 वाक्यं प्रययौ यत्र वासवः ॥ ५८ ॥ ॥ १०६ ॥

करनेके लिए शरीरसे माया बनाकर उसको उसके पास सदा रमण
 करनेको भेजती रहती है इस बातको इस प्रकार जानकर कि-यह
 भार्या इस प्रकार रहती है ॥५२॥ हे वीर ! अब तुम वीष्णवास्त्र
 से शंभरके मारे जाने पर अपनी गायत्री भार्याको लेकर द्वारका
 को जाना ॥ ५३ ॥ अब आप वीष्णावास्त्रको और महातेजस्वी
 क्वचको ग्रहण करिये, हे शत्रुसूदन ! इन्द्रने इनको आपके लिए
 एकत्रिन करके भेजा है ५४ अब तुम मेरे दूसरे वाक्यको सुनो और
 उसे निःशंक होकर करना हे तात ! इस देवरिपुके पास सर्वदा
 बलवान् रहनेवाला एक मुद्गर है ॥ ५५ ॥ उस शत्रुओंका नाश
 करने वाले मुद्गरको इसे पावतीने दिया है वह संग्राममें देवता
 और दानवों पर भी अमोघ रहता है ५६ उस अस्त्रके रोकनेके
 लिये तुम देवीका स्मरण करना, रणके उत्सुक पुरुषोंको उसकी
 स्तुति करनी चाहिये और उसको गणाय करना चाहिये ५७ और
 तुम संग्राममें शत्रुके साथ यत्न करना, इस प्रकार बातें कह कर
 नारदजी गहाँ इन्द्र थे तहाँ चलेगए ५८ एकसी छत्रों अध्याय समाप्त

वैशम्पायन उवाच । शम्बरस्तु ततः क्रुद्धो मुद्गरं तं तगाददे ।
 मुद्गरे शृणुमाणे तद् द्वादशार्काः समुन्निताः ॥ १ ॥ पर्वतरश्चलिताः
 सर्वे तथैव बभूवुः शतम् । उन्मार्गाः आगरा याताः संलुब्धाश्चापि
 देवताः ॥ २ ॥ शृत्रचक्राकुतं व्योम उल्कापातो बभूव ह । चर्ष
 रुधिरं देवः परुषं पवनो कथौ ॥ ३ ॥ एवं दृष्ट्वा महोत्पातान् प्रद्युम्नः
 स त्वरान्वितः । अवतीर्ण रथाद्दीरः कृताञ्जलिपुटः स्थितः ॥ ४ ॥
 देवीं सस्मार मनसा पार्वतीं शंकरगियाम् । प्रणम्य शिरसा देवीं
 स्तोतुं समुपचक्रमे ॥ ५ ॥ प्रद्युम्न उवाच । ओं नमः कात्यायन्यै
 गिरिशायै नमो नमः । नपस्त्रैत्रिलोक्यमागामै कात्यायन्यै नमो नमः
 नमः शत्रुविनाशिन्यै नमो गौर्यै शिवप्रिये । नगस्ये शुम्भमथनीं
 निशुम्भमथनीर्षपि ॥ ७ ॥ कालरात्रि नगस्तुभ्यं कौमार्यै च नमो

वैशम्पायनजीने कहा, कि तदनन्तर रोषमें भरे हुए शंबरने
 मुद्गर उठा लिया, मुद्गरके पकड़ने पर चारह सूर्य उदय होगए
 सारे पर्वत और पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र ऊपरको बहने लगे
 और देवता भी जुब्ध होने लगे ॥ १ ॥ २ ॥ आकाश गीध
 और चक्रवर्त्से व्याप्त होगया और उल्कापात होने लगा, मेघ
 रुधिर बरसाने लगा और रुखा वायु चलने लगा ॥ ३ ॥ इस
 प्रकार बड़े २ उत्पातोंको देख कर वीर प्रद्युम्न शीघ्रतासे रथ पर
 से कूद कर हाथ जोड़ कर खड़ा होगया ॥ ४ ॥ और मनमें शंकर
 की गिया पार्वती देवीका स्मरण करने लगा और उनको शिर
 से प्रणाम कर स्तुति करने लगा ॥ ५ ॥ प्रद्युम्नने कहा, कि—
 ॐ कात्यायनीके लिये प्रणाम है, गिरीशके लिए प्रणाम है,
 त्रिलोकीकी मायाके लिए प्रणाम है ॥ ६ ॥ वैत्रि-विनाशिनीके
 प्रणाम है गौरीके लिए प्रणाम है, हे शिवप्रिये ! (मैं तुम्हें प्रणाम
 करता हूँ) मैं शुम्भका मथन करने वाली और निशुम्भका मथन
 करने वालीको प्रणाम करता हूँ ॥ ७ ॥ हे कालरात्रि ! आपको

नमः । कान्तारवासिनीं देवीं नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥८॥ विन्ध्य-
वासिनीं दुर्गघ्नां रणदुर्गा रणप्रियाम् । नमस्यामि महादेवीं जयां
च विजयां तथा ॥ ९ ॥ अपराजितां नमस्येहपजितां शत्रुनाशि-
नीम् । घण्टाहस्तां नमस्यामि घण्टामालाकुलां तथा ॥ १० ॥
त्रिशुलिनीं नमस्यामि महिपासुरघातिनीम् । सिंहाननां नमस्यामि
सिंहधरकेतनाम् ॥ ११ ॥ एकानशां नमस्यामि गायत्रीं यज्ञ-
सत्कृताम् । सावित्रीं चापि विप्राणां नमस्येहं कृताञ्जलिः ॥१२॥
रक्त पां देवि सततं संग्रामे विजयं कुरु । इति कामवचस्तुष्टा दुर्गा
संगीतगानसा ॥ १३ ॥ उवाच वचनं देवी सुधीतेनांतरात्मना ।
पश्य पश्य महाबाहो रुक्मिण्यगानन्दवर्धन ॥ १४ ॥ वरं-वरय

प्रणाम है, कौमारीके लिए प्रणाम है, मैं हाथ जोड़ कर कान्तार-
वासिनी देवीको हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ ॥८॥ मैं विन्ध्य-
वासिनी दुर्गनाशिनी रणदुर्गा रणप्रिया महादेवी जया और
विजया (स्वरूपा) को प्रणाम करता हूँ ॥९॥ मैं वैरिनाशिनी
अजिता अपराजिताको प्रणाम करता हूँ तथा मैं हाथमें घण्टा
धारण करने वाली और घण्टोंकी मालासे आकुल देवीको प्रणाम
करता हूँ ॥ १० ॥ महिपासुरका संहार करने वाली त्रिशुलिनी
को मैं प्रणाम करता हूँ, सिंहकी श्रेष्ठ ध्वजा वाली सिंहकी समान
मुख वाली देवीको मैं प्रणाम करना हूँ ॥११॥ मैं यज्ञमें सत्कारं
पाने वाली पूर्ण कला गायत्रीको प्रणाम करता हूँ मैं विप्रोंकी
सावित्रीरूप पार्वतीको हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ ॥१२॥
हे देवि ! तुम मेरी सर्वदा रक्षा करो और संग्राममें मेरी विजय
कराओ, कामके ऐसे वचनोंसे दुर्गा सन्तुष्ट होगई और उसका
मन प्रसन्न हुआ ॥१३॥ तब उस देवीने प्रसन्न मनसे यह बात
कही; कि-हे रुक्मिणीके आनन्दको बढ़ाने वाले महाभुज ! तू
(मेरी औरको) देव ॥ १४ ॥ हे वत्स ! तू वर माँग ले, क्या

वत्स त्वमपोषं दर्शनं मम । देव्यास्तु वचनं श्रुत्वा रोमाञ्चोद्धत-
मानसः ॥ १५ ॥ मण्डपे शिरसो देवीं विद्मन्तुमुपचक्रमे । यदि
त्वं देवि तुष्टासि दीप्तां मे यदीप्सितम् ॥ १६ ॥ वरं च वरदे
याचे सर्वाभिन्नेषु मे जयः । यस्त्वया मुद्गरो दत्तः शम्बरस्यात्म-
संभवः ॥१७॥ एष मे गात्रमासाद्य माला पञ्चानती भवेत् । तथा-
स्त्विति च साप्युक्त्वा तत्रैवान्तरधीगत ॥१८॥ प्रद्युम्नस्तु महा-
तेजास्तुष्टो रथगथाकृद् । मुद्गरं तं गृहीत्वा च शम्बरः क्रोध-
मूर्च्छितः ॥१९॥ भ्रामयित्वा स चिक्षेप प्रद्युम्नोरसि वीर्यवान् ।
स गत्वा मदनाभ्याशं माला भूत्वा तु पौष्करा ॥ २० ॥ प्रद्यु-
म्नस्य च कण्ठे तु समासक्ता व्यराजत । नक्षत्राणां तु मालायां
यथा परिवृतो विधुः ॥ २१ ॥ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धारच-
कि-मेव दर्शनं अपोष है, देवीके वचनसे मुन कर प्रद्युम्नके
रोम खड़े होगए और उसका मन खिल उठा ॥१५॥ और उसने
देवीको शिरसे मण्डप कर यह कहना आरम्भ किया, कि-हे
देवि ! यदि आप मुझ पर मसन्न हुई है और मुझे मन चाहा
वरदान देना चाहती हैं ॥ १६ ॥ तो हे वर देने वाली ! मैं यह
वर मागता हूँ कि सब वैरिओंसे मेरी जीत हो और तुमने जो
अपना बनाया हुआ मुद्गर शम्बरको दिया है ॥१७॥ यह मेरे
शरीर पर लग कर पशोंकी माला हो जाय, तब वह तथास्तु कह
कर तहाँ ही अन्तर्धान होगई ॥१८॥ महातेजस्वी प्रद्युम्न मसन्न
होकर रथ पर चढ़ गए तब वीर्यवान् शम्बरने क्रोधमें गर कर
मुद्गर उठा उसको घुमा कर प्रद्युम्नकी छातीमें मारा, वह मुद्गर
प्रद्युम्नके समीप पहुँच पुष्करों (कमलोंकी माला बन प्रद्युम्न
के कण्ठमें पड़ गया, तब प्रद्युम्न, नक्षत्रमालासे घिरे हुए चन्द्रमा
की समान शोभा पाने लगे ॥१९ २१॥ प्रद्युम्नके पास मुद्गर
की पुष्प बना हुआ देखकर देवता गंभीर और अग्नि तथा पिद्द

(६०८) * महाभारत-हरिबंधपर्व २ * [सप्ताधिकशततम

परमर्षयः । साधु साध्विति वाचोभिः पूजयन् केशवात्मजम् २२
 सुहृत् पुणभूतं तु दृष्ट्वा प्रद्युम्नसन्निधौ । वैष्णवं परमास्त्रं तु
 नारदेन यथाहृतम् ॥ २३ ॥ सन्दधे चापमानम्य इदं वचनमब्र-
 वीत् । यद्यहं रुक्मिणीपुत्रः केशवस्यात्मजो ह्यहम् ॥ २४ ॥ तेन
 सत्येन वाणोऽयं हन्तिव्रमं शम्बरं रणे । इत्युक्त्वा चापमाकृष्य
 सन्नाय च महामनाः ॥ २५ ॥ चित्तोप शम्बरस्याथ दहँल्लोक-
 जयं यथा । सान्तिप्तो वृष्णिंसिंहेन शरः क्रव्यादगोहनः ॥ २६ ॥
 हृदयं शम्बरस्याथ गित्वा धरणिमागतः न चास्य मांसं न स्नायु-
 र्नास्थि न त्वङ् न शोणितम् ॥ २७ ॥ सर्वं तद्भस्मसाद्भूतं वैष्ण-
 वास्त्रस्य तेजसा । हते दैत्ये महाकाये दानवे शम्बरेऽधमे ॥ २८ ॥
 जहृर्द्वेवगन्धर्वा नवृत्तुरचाप्सरो गणाः । उर्वशीमेनकारम्भाविम-
 चित्तिस्तिलोत्तमाः ॥ २९ ॥ नवृत्तुर्हृष्टमनसो जगत् स्थानर-

साधु २ कह कर केशवके पुत्रकी प्रशंसा करने लगे उस समय
 प्रद्युम्नने नारदजीके वचनानुसार परमास्त्र वैष्णवास्त्रको चाप
 चढ़ा उठा कर चढ़ाया और यह बात कही, कि-यदि मैं रुक्मिणीका
 पुत्र और केशवका बेटा होऊँ, तो उस सत्यसे यह बाण रणमें
 शम्बरको मार डाले, महामनस्वी प्रद्युम्नने इस प्रकार कह कर
 चापको खेंच साध कर शम्बर पर बाण फेंका वृष्णिगोंमें सिंह
 की सगान प्रद्युम्नके द्वारा फेंका हुआ राजसोंको मोहित करने
 वाला बाण तीनों लोकोंको जलाता हुआसा शम्बरके हृदयको
 फोड़ कर पृथ्वीमें घुस गया, उस समय शम्बरका न मांस दिग्वाई
 दिया और न स्नायु तथा हड्डिगें ही दिग्वाई दी और न त्वचा
 तथा रक्त दिग्वाई दिया ॥ २२-२७ ॥ वह सब वैष्णवास्त्रके तेज
 से भस्मसा होगया महाकाय अधम दैत्य शम्बरके मारे जाने पर
 देवता और गन्धर्वे प्रसन्न होने लगे और अप्सरायें नाचने लग्यीं
 उर्वशी मेनका रंभा विप्रचित्ति और तिलोत्तमा भी मनमें प्रसन्न

जङ्गमम् । देवराजस्तु सुगीतः सर्वदेवगणैः सह । मधुम्नं ।
 वपेण ह्यभ्यवर्षत् प्रहृष्टवत् ॥ ३० ॥ अथ समरहते तु दैत्य
 मधुमथनस्य सुतेन वैष्णवास्त्रैः । विगतरिपुभगाः सुराश्च व
 र्मकरविभूषणकेतनं स्तुवन्तः ॥ ३१ ॥ स च समरपरिश्रमं
 र्वा नगरमुखं प्रविशेश रौकि शेषः । पियतम इव कान्तया प्र
 स्वरितपदे रतिदर्शनं चकार ॥ ३२ ॥ ॥ -

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि शम्बरवधं
 नाग सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥

वैशम्पायन उवाच । समाप्तमायो मायज्ञो विक्रान्तः सा
 ऽध्ययः । अपृम्यां निहतो युद्धे मायावी कालशम्बरः ॥ १
 तमृत्तवन्ते नगरे निहत्यासुरसत्तमम् । गृह्य मायावतीं देवीमागच
 न्नगरं पितुः ॥२॥ सौतरिद्यगतो भूत्वा मायावी शीघ्रविक्रम

होती हुई नाचने लगी और स्थावर जंगम जगत् भी (प्रस
 होमया) उस समय देवराज इन्द्रने और सब देवताओंने प्रस
 होकर मधुम्न पर पुष्पोकी बौद्धार की ॥२८-३०॥ मधु दै
 के मथने वाले श्रीकृष्णके पुत्रसे वैष्णवास्त्रके द्वारा दैत्यरा
 शम्बरका वध होने पर देवता वैरिओंके भयसे रहित होजाने
 कारण मकरकेतन मधुम्नकी स्तुति करते हुए चले गए । ३
 तव रुक्मिणी-पुत्रने भी स्त्रीसे ग्रहण किये जाने वाले कान्तव
 समान समरके परिश्रमको धारण कर नगरके द्वारमें प्रवेश किय
 और त्वरासे यैर रख कर रतिका दर्शन किया ॥ ३२ ॥ ए
 सौ सातवों अध्याय समाप्त ॥ १०७ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-मायाओंके समाप्त होने पर माय
 को जानने वाला समरमें अच्युत मायावी कालशम्बर युद्धमें अपृम
 के दिन मारा गया था ॥ १ ॥ मधुम्न ऋत्तवान् नगरमें असु
 सत्तमको मार कर मायावती देवीकी साथमें ले पिताके नगरके

आजगाम पुरी रम्यां रक्षितां तेजसा पितुः । सोऽन्तरिक्षान्नि-
पतितः केशवान्तःपुरे शिशुः । मायावत्या सह तथा रूपवानिव
मन्मथः ॥ ४ ॥ तस्मिन्स्तत्रावपतिते, गार्हप्यः, केशवस्य याः ।
विस्मिताश्चैव हृष्टाश्च भीताश्चैवाभवंस्ततः ॥ ५ ॥ ततस्तं काम-
संकाशं कान्तया सह सङ्गतम् । प्रेक्षन्त्यो हृष्टवदनाः पिबन्त्यो
नयनोत्सवम् ॥ ६ ॥ तं व्रीहितमुखं दृष्ट्वा लब्धजगानं पदे पदे ।
अभवं स्निग्धसंकल्पाः सर्वास्ताः कृष्णयोपितः ॥ ७ ॥ रुक्मिणी
चैव तं दृष्ट्वा शोकार्ता पुत्रवृद्धिनी । सर्पत्नीशतसंकीर्णा सवाष्पा
वाक्यमब्रवीत् ॥ ८ ॥ यादृक्क्षमो मया दृष्टो निशाया यौवने गते ।
कंसारिणा ममानीय दत्तं साहारपल्लवम् ॥ ९ ॥ शशिरश्मि-
प्रतीकाशं मुक्तादागविभूषितम् । केशवेनाङ्गारोप्य मम कण्ठे

चले ॥ २ ॥ वह फुर्से पराक्रम करने वाले मायाभी प्रद्युम्न
आकाशमेंको होकर अपने पिताके तेजसे रक्षित पुरीमें आगए ३
वह कामदेवकी सगान रूपवान् बालक मायावतीके साथ केशव
के रनवासमें उतर पड़ा ॥ ४ ॥ प्रद्युम्नके तहाँ उतरने पर केशव
की स्त्रियों विस्मित होने लगी, प्रसन्न होने लगी और डर भी
गई ॥ ५ ॥ तदनन्तर वे उस स्त्रीके साथ आये, हुए कामकी
सगान नयनोंको प्रसन्न करने वाले बालकको (नेत्रोंसे) पीती
हुईसी देखने लगी ॥ ६ ॥ उसको पद २ में मुखको लगीला
करते हुए देख कर कृष्णकी सब स्त्रियोंके मनमें उस पर वात्सल्य
भावका उदय होगया ॥ ७ ॥ पुत्रको चाहने वाली शोकसे व्याकुल
सैंकड़ों सौतोंसे घिरी हुई रुक्मिणीने उसको देख कर गद्गद ६ पद
से यह बात कही, कि-॥ ८ ॥ मैंने रात्रिका यौवन वीतने पर
अर्थात् रात्रिके अन्तिम प्रहरमें जैसा स्वप्न देखा था (उसको
सुनो) कंसके बैरीने मुझे हारपल्लव लाकर दिया था ॥ ९ ॥
वह सूर्यकी किरणोंकी सगान था और मोतियोंकी लड़ियोंसे

न्यवधत ॥ १० ॥ श्यामा सुनारुकेशा स्त्री शुक्लाम्बरत्रिभूषिता ।
 पद्महस्ता निरीक्षन्ती प्रविष्टा मम वेश्मनि ॥ ११ ॥ तथा पुनरहं
 शृणु स्नापिता रुचिराम्बुजा । कुशेशयमयी मालां स्त्री संश्रुत्या
 पाणिना ॥ १२ ॥ मम मूर्धन्युपाघ्राय दत्ता स्वच्छनया मम । एवं
 स्वप्नान् कीर्तयन्ती रुक्मिणी हृष्टमानसा ॥ १३ ॥ सखीजनवृता
 देवी कुमार वीक्ष्य तं मुहुः । धन्यायाः खल्वयं पुत्रो दीर्घायुः
 प्रियदर्शनः ॥ १४ ॥ ईदृशः कागसंकाशो यौवने प्रथमे स्थितः ।
 जीव पुत्र त्वया पुत्र का सौभाग्यसमन्विता ॥ १५ ॥ किमर्थ
 चाम्बुदश्याप सभार्गस्त्वभिहागतः । अस्मिन्वयसि सुव्यक्तं पशुन्मो
 मम पुत्रकः ॥ १६ ॥ भवेद्यदि न नीतः स्यात् कृतान्तेन वली

विभूषित था; केशवने उसको मेरी गोदीमें रखकर मेरे गलेमें डाल
 दिया था ॥ १० ॥ (और मैंने देखा, कि-) सुन्दर केशों वाली
 शुक्लवस्त्रसे विभूषित हाथमें कमल लिए हुए एक श्यामा स्त्री
 मेरी ओरको देखती हुई मेरे घरमें घुस रही है ॥ ११ ॥ फिर
 उसने मुझे पकड़ कर रुचिर जलसे स्नान कराया है, तदनन्तर
 उस स्त्रीने कमलोंकी मालाको हाथसे पकड़ कर मेरे गस्तकको
 सूँघा फिर वह माला स्वच्छतासे मुझे दे दी रुक्मिणी प्रसन्न
 होकर इस प्रकार स्वर्गोंका वर्णन करने लगी ॥ १२ ॥ १३ ॥
 इसके उपरान्त सखियोंसे घिरी हुई देवी रुक्मिणीने उस कुमार
 को बार २ देव कर कहा, कि-यह देवनेमें प्यारा लगने वाला
 दीर्घायु व्यक्ति किसी भाग्यवतीका पुत्र है ॥ १४ ॥ यह तो ऐसा
 है, मानो पशंसनीय यौवन वाला कामदेव ही हो, हे पुत्र ! तू
 जीता रह; हे पुत्र ! कौनसी स्त्री तुझसे भाग्यवती है ॥ १५ ॥
 और हे मेघकी समान श्याम ! तू अपनी स्त्रीसहित यहाँ पर
 किस लिये आया है, मेरा पुत्र पशुन्म भी यदि उसे
 बलवान् काल पकड़ कर न ले गया होगा तो इतना ही बड़ा

यसा । व्यक्तं कृष्णकुमारस्त्वं न मिथ्या मम तर्किनम् ॥ १७ ॥
 विज्ञातोऽसि मया चिन्हैर्निना चक्रं जनार्दनः । मुखं नारायण-
 स्येव केशाः केशान्त एव च ॥ १८ ॥ ऊरु वक्षो भुजा तुल्यौ हलिनः
 श्वशुरस्य मोक्षस्तं वृष्णिकुलं सर्वं द्योतयन् वपुषा स्थितः ॥ १९ ॥
 अहो नारायणस्येव दिव्या ते परमा तनुः । एतस्मिन्नन्तरे कृष्णः
 सहसा प्रविवेश हानाम्दस्य वचः श्रुत्वा शम्बरस्य वधं प्रति २०
 सोऽपश्यत्तं सुतं ज्येष्ठं सिद्धं मन्मथलक्षणैः । स्नुषां : मायावतीं
 चैव हृष्टचेता जनार्दनः ॥ २१ ॥ कृष्ण उवाच । सोऽब्रवीत्
 सहसा देवीं रुक्मिणीं देवनामिव । अयं स देवि सम्पाप्तः सुत-
 श्चापधरस्तव ॥ २२ ॥ अनेन शम्बरं हत्वा मायायुद्धविशारदम् ।

होगा, तू कृष्णका ही कुपार प्रतीत होता है, मेरा सोचना मिथ्या नहीं होगा ॥ १६ ॥ १७ ॥ तेरे चिन्होंसे मैंने तुझे पहिचान लिया है, तू चक्ररहित जनार्दनकी समान दीखता है, तेरा मुख नारायणकी समान है, और तेरे केश तथा केशान्त, नारायणकी समान है १८ तुम्हारी जंघाएँ वक्षःस्थल और भुजाएँ मेरे श्वशुर हली (वलदेव) जीके समान हैं (बड़ा भाई पिताकी समान होता है अतः जेठको भी पतिसे बड़ा होनेके कारण श्वशुर कहा है) अपने शरीरसे सारे वृष्णिकुलको दिपाने वाला तू कौन है ? १९ अहो ! तेरा शरीर तो नारायणके शरीरकी समान दिव्य है, इसी समय श्रीकृष्ण भी नारदजीसे शंवरके वधकी बात सुन कर एक साथ तहाँ आगए २० उस समय कामदेवके लक्षणों से सिद्ध अपने पुत्रको और वह मायावतीको देख कर जनार्दन का चित्त मसन्न होगया २१ कृष्णने कहा, कि-उस समय उन्होंने सहसा देवताकी समान देवी रुक्मिणीसे कहा, कि-हे देवि ! यह तुम्हारा धनुषधारी पुत्र आगया २२ इसने मायासे युद्ध करने में चतुर शम्बरको मार कर जिससे वह देवताओंको पीड़ित करता

इता मायासुताः सर्वा योभिर्देवानवाधयत् ॥ २३ ॥ सती
 चेयं शुभा साध्वी भार्या वै तनयस्य ते । मायावतीति विख्याता
 शम्बरस्य शृङ्गोपिना ॥ २४ ॥ मा च ते शम्बरस्येयं पत्नीति
 भवतु व्यथा । मन्मथे तु गते नाशं गते चानंगतां पुरा ॥ २५ ॥
 कामपत्नी न कान्तैवा शम्बरस्य रतिभिया । मायारूपेण तं दैत्यं
 मोहपत्यसङ्गुष्णभा ॥ २६ ॥ न चीया तस्य कौमारे वशे तिष्ठति
 शोभना । आत्ममायामयं कृत्वा रूपं शंबरमाविशत् ॥ २७ ॥
 पत्न्येया मम पुत्रस्य स्नुषा तव वरागना । लोककान्तस्य साहाय्यं
 करिष्यति मनोमयम् ॥ २८ ॥ प्रवेशयैनां भवने पूज्यां ज्येष्ठां
 स्नुषां मम । चिरं प्रनष्टं च सुतं भगवस्व पुनरागतम् ॥ २९ ॥
 वैशम्पायन उवाच । श्रुत्वा तु वचनं देवी कृष्णेनोदाहृतं तदा ।
 प्रहर्षमतुलं लब्ध्वा रुक्मिणी वाचयमब्रवीत् ॥ ३० ॥ अहो धन्य-

रहता था, उन सब मायाओंको भी इसने नष्ट कर डाला है २३
 यह सती और साध्वी तुम्हारे पुत्रकी भार्या है और यह शुभा
 मायावती नामसे प्रसिद्ध है और शम्बरके घरमें रही है २४ परन्तु
 इसको शम्बरकी भार्या मान कर तू खेद न करना क्योंकि-जब
 पहिले मन्मथ (काम) नष्ट होकर अनङ्ग होगया था ॥ २५ ॥
 यह रति उस कामकी पत्नी है, और यह शम्बरकी पत्नी नहीं
 है ॥ २६ ॥ यह शोभना कुमारावस्वामे उसके वशमें नहीं रहती
 थी, यह अपना मायामय रूप बना कर शम्बरके घर रहती
 थी ॥ २७ ॥ यह मेरे पुत्रकी बधू है और तुम्हारी श्रेष्ठ स्त्री है,
 यह इस लोककान्तकी इच्छानुसार सहायता करगी ॥ २८ ॥ तू
 इस मेरी बड़ी पुत्रवधूको घरमें ले और चिरकालसे खोये हुए
 तथा इस सगम फिर आए हुए अपने पुत्रकी सेवा कर ॥ २९ ॥
 वैशम्पायनजीने कहा, कि-देवी रुक्मिणीने श्रीकृष्णके कहे हुए
 वचनको सुन कर परमभसन्न हो यह बात कही, कि-॥ ३० ॥

तरास्मीति वीरपुत्रसमागमात् । अद्य मे सफलः कामः पूर्णो मेऽद्य
 मनोरथः ॥ ३१ ॥ चिरमनष्टपुत्रस्य दर्शनं प्रियया सह । आगच्छ
 पुत्रभवनं सभार्यः प्रविशेश ह ॥ ३२ ॥ ततोऽभिवाद्य चरणौ
 गोविंदं मातरं च ताम् । प्रद्युम्नः पूजयामास हलिनं च महा-
 बलम् ॥ ३३ ॥ उत्थाप्य तं परिष्वज्य मूर्च्छुपाघ्राय वीर्यवान् ।
 प्रद्युम्नं बलिनां श्रेष्ठं केशवः परवीरहा ॥ ३४ ॥ स्तुषां चोत्थाप्य
 तां देवीं रुक्मिणीं रुक्मभूषणा । परिष्वज्योपसंगृह्य स्नेहाद्गद्गद-
 गापिणी ॥ ३५ ॥ समेत्य भुवनं पत्न्या शचीन्द्रगदितिर्यथा ।
 प्रवेशयामास तदा रुक्मिणीं सुतमागतम् ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि

अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥

मेरा धन्यभाग्य है, वीरपुत्रका समागम होनेसे आज मेरा जन्म
 सफल हो गया और मेरा मनोरथ पूर्ण होगया ॥ ३१ ॥ मुझे
 बहुत कालसे खोप हुए अपने पुत्रका और उसकी घर वालीका
 दर्शन हुआ है हे पुत्र ! तुम आओ तदनन्तर प्रद्युम्नने अपनी
 भार्याके साथ घरमें प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ तदनन्तर प्रद्युम्नने
 अपनी माताके और गोविन्दके चरणोंमें प्रणाम करके महाबली
 बलदेवजीकी पूजा की ॥ ३३ ॥ तदनन्तर शत्रुओंके वीरोंका नाश
 करने वाले वीर्यवान् केशवने बलवानोंमें श्रेष्ठ प्रद्युम्नको उठाकर
 उसका अलिङ्गन कर उसके गस्तकको सूँघा ३४ और सुवर्णके
 आभूषणोंको धारण करनेवाली रुक्मिणीने भी अपनी कान्ति-
 मती बधुको उठाकर उसका अलिङ्गन किया और उसको पकड़
 कर स्नेहभरी गद्गद वाणीसे बात चीत करने लगी ॥ ३५ ॥ जिस
 प्रकार अदिति इन्द्राणीके स्वापीको भवनमें घुसाती है इसी प्रकार
 रुक्मिणीने अपने आगे हुए पुत्रका महानमें प्रवेश कराया ३६
 एक सी आठवाँ अध्याय समाप्त ॥ १०८ ॥

वैशम्पायन उवाच । अत्राश्वर्यात्मकं स्तोत्रमाह्निकं यजतां
 वर । प्रद्युम्ने द्वारकां प्राप्ते हत्वा तं कालशम्बरम् ॥ १ ॥ वल-
 देवेन रक्षार्थं प्रोक्तमाह्निकमुच्यते । यजन्त्वा तु नृपश्रेष्ठ साधं
 पूवात्मतां व्रजेत् ॥ २ ॥ कीर्तितं वलदेवेन विष्णुना चैव कीर्ति-
 तम् । धर्मकामैश्च मुनिभिश्चापिभिश्चापि कीर्तिततम् ॥३॥ कर्हि-
 चिद्रुक्मिणीपुत्रो हलिना संयुतो गृहे । उपविष्टः प्रणम्याथ तमु-
 वाच कृताञ्जलिः ॥ ४ ॥ प्रद्युम्न उवाच । कृष्णानुज महाभाग
 रोहिणीतनयः प्रभो । किञ्चित् स्तोत्रं मम ब्रूहि यजन्त्वा निर्भयो-
 ऽभवम् ॥ ५ ॥ श्रीवलदेव उवाच । सुरासुरगुरुब्रह्मा पातु मां
 जगतः पतिः । अर्थोकारवपट्कारौ स्वाविवी विधयस्त्रयः ॥ ६ ॥
 ऋचो यजूंषि सागानि ञ्जन्दाभ्याथर्वणानि च । चत्वारस्त्व-
 खिला वेदाः सरहस्याः सविस्तराः ॥ ७ ॥ पुराणमितिहासरच

वैशम्पायनजीने कहा, कि यहाँ एक आश्वर्यात्मक आह्निक स्तोत्र
 है जब प्रद्युम्न कालशम्बरको मार कर द्वारकामें आये थे उस
 समय वलदेवजीने रक्षा करनेके लिये एक आह्निक कहा था यह
 बात कही जाती है, कि—हे नृपश्रेष्ठ! उसको जपनेसे मनुष्य साधकाल
 में पवित्र होजाता है ॥ १॥२॥ वलदेवजीने इसका कीर्तन किया
 है और विष्णुने भी इसको गाया है और धर्म चाहनेवाले ऋषि
 और मुनि भी गाया करते हैं ॥ ३ ॥ एक समय रुक्मिणीपुत्र
 और वलदेवजी घरमें मिल कर बैठे हुए थे उस समय प्रद्युम्न
 ने उनको प्रणाम कर उनसे बात चीत की ॥४॥ प्रद्युम्नने कहा,
 कि—कृष्ण जिनके छोटे भाई है ऐसे महाभाग हे रोहिणी-नन्दन
 प्रभो ! किसी ऐसे स्तोत्रका वर्णन करिये जिसका जप कर मैं
 निर्भय होजाऊँ । ५। वलदेवजीने कहा, कि देवता और असुरों
 के गुरु तथा जगतके स्वामी ब्रह्माजी मेरी रक्षा करें और ॐ कार
 वपट्कार तीन प्रकारकी गायत्री ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और

(६१६) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [नवाधिकशततम

खिलान्युपखिलानि च । अद्राम्युपाङ्गानि तथा व्याख्यातानि च
 पान्तु गाम् ॥ ८ ॥ पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्च-
 मम् । इन्द्रियमणि मनो बुद्धिस्तथा सत्त्वं रजस्तमः ॥९॥ व्यानो-
 दानः समानश्च प्राणोपागश्च पञ्चमः।वायवः सप्त चैवान्ये येष्वा-
 यत्तमिदं जगत् ॥ १० ॥ मरीचिरङ्गिरात्रिश्च पुलस्तयः पुलहः
 क्रतुः । भृगुर्बसिष्ठो भगवान् पान्तु ते मां महर्षयः ॥११॥ कश्य-
 पाद्याश्च मुनयश्चतुर्दिश दिशो दश । नरनारायणौ देवौ सगणौ
 पान्तु मां सदा ॥ १२ ॥ रुद्राश्चैकादश प्रोक्ता आदित्या द्वादशैव
 तु । अष्टौ च वसवो देवा अश्विनौ द्वौ प्रकीर्तितौ ॥ १३ ॥ ह्रीः
 श्रीर्लक्ष्मी स्वधा मेधा तुष्टिः पुष्टिः स्मृतिर्धृतिः । अदितिर्दितिर्दनु-
 श्यैव सिंहिका दैत्यमातरः ॥ १४ ॥ हिमवान् हेमकूटश्च निषधः
 श्वेतपर्वतः । अष्टपभः पारियात्रश्च विन्ध्यो नैर्ह्यपर्वतः ॥१५॥

अथर्ववेदके छन्द तथा चाम्रों-पूर्ण वेद और उनके विस्तृत रहस्य
 पुराण इतिहास खिल और उपखिल तथा कहे जाने वाले अंग
 और उपाङ्ग भी मेरी रक्षा करे ॥६-८॥ पृथिवी वायु आकाश
 जल और पाँचवों तेज इन्द्रिय मन बुद्धि सत्त्व रज और तम व्यान
 उदान समान प्राण और पाँचवाँ अपान और जिनके अधीनमें
 यह जगत् रहता है वे सात दूसरी, वायुएँ मरीचि अङ्गिरा अत्रि
 पुलस्तय, पुलह क्रतु, भृगु, और भगवान् वशिष्ठ यह महर्षि मेरी
 रक्षा करें ॥ ९-११ ॥ कश्यप आदि चौदह हुनि दश दिशाएँ
 और गणों सहित नरनारायण देव मेरी सदा रक्षा करें ॥१२॥
 ग्यारह रुद्र बारह आदित्य और जो आठ वसु कहे हैं तथा जो
 देवता अश्विनीकुमार कहे हैं ॥ १३ ॥ ह्री, श्री, लक्ष्मी, स्वधा,
 मेधा, तुष्टि, पुष्टि, स्मृति धृति और अदिति तथा दिति दनु और
 सिंहिका नामवाली दैत्योंकी माताएँ हिमाचल हेमकूट निषध
 और श्वेत पर्वत तथा अष्टपभ पारियात्र विन्ध्य और नैर्ह्य

सहोदगश्च गल्लयो मेरुमन्दरददुराः । क्रौंचकैलासमैनाकाः पांतु
 मां धरणीधराः ॥ १६ ॥ शेषश्च वासुकिश्चैव विशालान्तश्च
 तक्षकः । प्लापत्रः शुक्लवर्णः कम्बलारवतरावुभौ ॥ १७ ॥
 हस्तिभद्रः पिटरकः कर्कोटकानञ्जयी । तथा पूरणकश्चैव नागश्च
 करवीरकः ॥ १८ ॥ सगनास्पोदधिमुखस्तथा शृङ्गारपिण्डकः ।
 मयिनागश्च भगवांस्त्रिपु लोकेषु विश्रुतः ॥ १९ ॥ नागराडधि-
 कर्णश्च तथा हारिद्रको परः । एते चान्ये च वदवो ये चान्ये गानु-
 कीर्तिताः ॥ २० ॥ भूधराः सत्यधर्माणः पान्तु मां भुनगेश्वराः ।
 समुद्राः पान्तु चत्वारो गंगा च सरितां वरा ॥ २१ ॥ सरस्वती
 चन्द्रभागा शतद्रुदेविका शिवा । इरावती विपाशा च सरयुर्मृना
 तथा २२ कल्पापी च रयोष्मा च वाहुदा च हिरण्यदा । प्लक्षा
 चेक्षुमती चैव स्रवन्ती च बृहद्रथा रश्मिपाता चर्मण्वती चैव पुण्या
 चैव बधूसरा । एताश्चान्याश्च सरितो याश्चान्या गानुकीर्तिताः
 उत्तरापथगाग्निः सलिलैः स्नपयन्तु माम् वेणी गोदावरी सीता

पर्वत सद्य उदय मलय, मेरु, मन्दर, ददुर तथा क्रौंच कैलास
 और मैनाकपर्वत मेरी रक्षा करें ॥ १४-१६ ॥ शेष, वासुकि,
 विशालान्त और तक्षक प्लापत्र शुक्लवर्ण तथा कम्बल और
 अश्वतर नामक दोनों सर्प हस्तिभद्र, पिटरक, कर्कोटक, धनञ्जय,
 पूरण और कारवीरक नाग सुपनास्य, दधिमुख तथा शृंगार-
 पिण्डक, और तिलोकीमें मसिद्ध भगवान् मयिनाग नागराज
 अधिकर्ण तथा हारिद्रक, ये और जिनका वर्णन नहीं किया है,
 वे सत्य धर्म वाले पृथ्वीवारी भुनगेश्वर मेरी रक्षा करें तथा
 नदियोंमें श्रेष्ठ गंगा सरस्वती चन्द्रभागा शतद्रु देविका शिवा इरा-
 वती विपाशा सरयू तथा मृगा, कल्पापी, रयोष्मा वाहुदा हिरण्य-
 दा सत्ता इक्षुमती स्रवन्ती बृहद्रथा मसिद्ध चर्मण्वती पुण्या बधू-
 सरा ये तथा जिन नदियोंका कीर्तन नहीं किया है वे उत्तरापथ

कावेरी कौंकणावती ॥ २५ ॥ कृष्णा वेणा मुक्तिमती तमसा
 पुष्पावाहिनी । ताम्रपर्णी ज्योतिरथा उत्पलोदुम्बरावती ॥२६॥
 नदी वैतरणी पुण्या विदर्भा नर्मदा शुभा । वितस्ता भीमरथ्या
 च ऐना चैव महानदी ॥ २७ ॥ कालिन्दी गोमती पुण्या नदः
 शोणश्च विश्रुतः । एताश्चान्याश्च वै नद्यो याश्चान्या न तु
 कीर्तिताः ॥२८॥ दक्षिणापथवाहिन्यः सलिलैः स्नपयन्तु माम् ।
 त्रिभा चर्मएवती पुण्या मही शुभ्रवती तथा ॥ २९ ॥ सिधुवेत्र-
 वती चैव भोजान्ता वनमालिका । पूर्वभद्रा परा भद्रा उर्मिला च
 परद्रुमा ॥ ३० ॥ ख्याता वेत्रवती चैव चापदासीति विश्रुता ।
 प्रस्थावती कुण्डनदी नदी पुण्या सरस्वती ॥ ३१ ॥ चित्रघ्नी
 चेन्दुमाला च तथा मधुवती नदी । उमा गुरुनदी चैव तापी च
 विपलोदका ॥३२॥ त्रिमला विपलोदा च मत्तगंगा पयस्विनी ।
 एताश्चान्याश्च वै नद्यो याश्चान्या नानुकीर्तिताः ॥ ३३ ॥

से बहने वाली मुझे जलसे स्नान करावें, वेणी गोदावरी सीता
 कावेरी कौंकणावती कृष्णवेणा मुक्तिमती तमसा पुष्पावाहिनी
 ताम्रपर्णी ज्योतिरथा उत्पला उदुम्बरावती वैतरणी नदी पुण्या
 विदर्भा शुभा-नर्मदा वितस्ता भीमरथ और महानदी-ऐला
 कालिन्दी गोमती पुण्या और प्रसिद्ध नद सोन, ये नदियें और
 जिन नदियोंका कीर्तन नहीं किया है वे दक्षिणापथवाहिनी(दक्षिण
 में बहनेवाली नदियें मुझे जलोंसे स्नान करावें, त्रिभा चर्मएवती
 पुण्या मही तथा शुभ्रवती सिधु वेत्रवती भोजान्ता वनमालिका
 पूर्वभद्रा परा भद्रा उर्मिला परद्रुमा प्रसिद्ध-वेत्रवती प्रसिद्ध अण-
 दासी प्रस्थावती कुण्डनदी पुण्यावती-सरस्वती चित्रघ्नी इन्दुमाला
 मधुवती-नदी उमा गुरुनदी, निर्मल जलवाली-तापी निर्मल जल
 वाली-त्रिमला मत्तगंगा पयस्विनी, ये नदियें और जिनका कीर्तन
 नहीं किया है वे पश्चिम दिशाकी नदियें मेरा अभियेक करें, पूर्व

ता मां सगमिषिषन्तु पश्चिमागाधिता दिशम् । भागीरथी पुण्य
जला प्राच्यां दिशि समाधिता ॥ ३४ ॥ सा तु दहतु मे पापं
कीर्तिता शम्भुना धृता । प्रभासं च प्रयागं च नैमिषं पुष्कराणि
च ॥ ३५ ॥ गंगातीर्थं कुरुक्षेत्रं श्रीकण्ठं, गौतमाश्रमम् । रामा-
हृदं विनशानं रामतीर्थं तथैव च ॥ ३६ ॥ गंगाद्वारं कनखलं सोमो-
यत्र चोत्थितः । कपालमोचनं तीर्थं जम्बूगार्गं च विश्रुतम् । ३७ ।
सुवर्णविन्दुविख्यातं तथा कनकपिंगलम् । दशाश्वमेधिकं, चौब
पुण्याश्रमविभूषितम् ॥ ३८ ॥ बदरी चौब विख्याता नरनारा-
यणाश्रमः । विख्यातं फल्गुतीर्थं च तीर्थं चन्द्रवटं तथा ॥ ३९ ॥
कोकामुखं पुण्यतमं गंगासागरमेव च । मगधेषु तपोदशच गंगो-
द्भेदश्च विश्रुतः ॥ ४० ॥ तीर्थान्येतानि पुण्यानि सेवितानि
महर्षिभिः । सूकरं योगगार्गं च श्वेतद्वीपं तथैव च ॥ ४१ ॥ ब्रह्म-
तीर्थं रामतीर्थं वाजिमेष-शतोपमम् । धारासम्पातसंयुक्ता गंगा
क्लिष्वपनाशिनी ॥ ४२ ॥ गंगानौकुण्ठकेदारं, सूकरो भेदनं परम् ।
तं शापमोचनं तीर्थं पुनर्वेदानि क्लिष्वपात् ॥ ४३ ॥ धर्मार्थ-
दिशाकी पवित्र जल वाली भागीरथी वह शंभुकी धारण कीहुई
गशंतीय गंगा मेरे पापको भस्म करे प्रभास प्रयाग नैमिष पुष्कर
गंगातीर्थ श्रीकण्ठ गौतमाश्रम रामहृद विनशन तथा रामतीर्थ गंगा-
द्वार कनखल और जहाँ उमा सहित शिव मकट हूए थे वह तीर्थ,
कपालमोचन प्रसिद्ध जम्बूगार्ग प्रसिद्ध सुवर्णविन्दु कनकपिंगल
पुण्यमय आधर्मोसे विभूषित दशाश्वमेध प्रसिद्ध-बदरिकाश्रम
नरनारायणाश्रम प्रसिद्ध-फल्गुतीर्थ चन्द्रवट तीर्थ पुण्यतम कोका-
मुख गङ्गासागर और मगध देशके प्रसिद्ध तपोद और गङ्गोद्भेद,
महर्षियोंसे सेवित्र पवित्र तीर्थ तथा सूकर योगगार्ग श्वेतद्वीप
ब्रह्मतीर्थ साँ अश्वमेधोंकी समान रामतीर्थ और धाराके संपात
से युक्त क्लिष्वपनाशिनी गंगा गंगानौकुण्ठकेदार परभेदन सूकर

कामविषयो यशः प्राप्तिः शमो दमः । बरुणेशोऽथ धनदो यगो
नियम एष च ॥ ४४ ॥ कालो नयः सन्नतिश्च क्रोधो मोहः
क्षमा धृतिः । विद्युतोऽभ्राएयथौषध्यः प्रमादोन्मादविग्रहाः । ४५ ।
यक्षाः पिशाचगन्धर्वाः किन्नराः सिद्धचारणाः । नक्तंचराः खे-
चरिणो दंष्ट्रिणः प्रियविग्रहाः ॥ ४६ ॥ लम्बोदराश्च वलिनः
पिमाक्षा विश्वरूपिणः। गरुतः सह पर्जन्याः कलात्रुटिलवाः क्षणाः
नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव ऋतवः शिशिरादयः । मासाहोरात्रयश्चैव
सूर्याचन्द्रमसौ तथा ४८। आपोदश्च प्रमोदश्च प्रहर्षः शोक एव च ।
रजस्तमस्तपः सत्त्वं शुद्धिर्बुद्धिर्धृतिः श्रुतिः ४९। रुद्राणी भद्रकाली च
भद्रा ज्येष्ठा तु वारुणी । भासी च कालिका चैव शाडिली चेति
विश्रुताः ५०। आर्या कुहूः सिनीवाली भीमा चित्ररथी रतिः । एका-
नंशा च कूष्माण्डी देवी कात्यायनी च या ५१ लोहित्या जनमाता
च देवकन्या तु याः स्मृताः । गोमन्दा देवपत्नी च गां रक्षतु सर्वा-

श्रीर पापमोचन तीर्थ ये तीर्थं मुक्ते पापसे छुटार्थे ॥ १७-४३ ॥

धर्म अर्थ काम विषय यश प्राप्ति शम दम बरुण ईश कुबेर यम
नियम काल नीति सन्नति क्रोध मोह क्षमा धृति विजली बालां
ओषधियें प्रमाद उन्माद विग्रह यक्ष पिशाच गन्धर्व किन्नर सिद्ध
चारण गन्धर्व रात्रियें फिरने वाले आकाशमें फिरने वाले डाह
वाले प्रिय शरीर वाले, लम्बे पेट वाले बलवान् पीले नेत्रों वाले
विश्वरूप मेघ वायु कला त्रुटि, लव क्षण नक्षत्र ग्रह शिशिर आदि
ऋतु मास दिन रात सूर्य तथा चंद्रमा आपोद प्रमोद प्रहर्ष शोक
रज तम सत्त्व शुद्धि बुद्धि धृति श्रुति रुद्राणी भद्रकाली भद्रा
ज्येष्ठा वारुणी भासी कालिका श्रीर मसिद्ध शाडिली आर्या कुहू
सिनीवाली भीमा चित्ररथी रति पूर्णा कूष्माण्डी देवी कात्या-
यनी लोहित्या जनमाता श्रीर जो देवकन्याएँ कहीं हैं, वे गोमन्दा
श्रीर देवपत्नी भी मेरी श्रीर मेरे बान्धवोंकी रक्षा करे ४४ ५२

धवम् ॥ ५२ ॥ नानाभरणवेषाश्च नानारूपोक्तिताननाः । नाना-
 देशविदारिण्यो नानाशस्त्रोपशोभिताः ॥ ५३ ॥ मेदीमञ्जाप्रिया-
 श्चैव मद्यमांसवसाप्रियाः । मार्जारदीपिवक्त्राश्च गजसिंहनिभा-
 ननाः ॥ ५४ ॥ कंकेनापसृष्ट्राणां क्रौंचतुल्याननास्तथा । व्याल-
 यज्ञोपवीतारच चर्मप्रावरणास्तथा ॥ ५५ ॥ क्षत्रजोत्तितवक्त्रारच
 स्वरभेरी-समस्वनाः । मत्सराः क्रोधनारचैव प्रसादा रुचिरा-
 लयाः ॥ ५६ ॥ उत्तमोन्मत्तप्रमत्तारच प्रहरन्त्यश्च धिष्टिताः । पिङ्गान्ताः
 पिङ्गकेशाश्च ततोऽन्या लूनमूर्धजाः ॥ ५७ ॥ ऊर्ध्वकेश्यः कृष्णकेश्यः
 श्वेतकेश्यस्तथाचराः । नागापुत्रपत्न्याश्चैव वायुवेगास्तथा पराः ५८
 एकहस्ता. एकपादा एकाक्षाः पिङ्गला मताः । बहुपुत्रान्पुत्रा-
 रच द्विपुत्राः पुत्रमंडिकाः ॥ ५९ ॥ मुखमुण्डी विडाली च पूतना

अनेक प्रकारके आभरण और वेषोंको धारण करने वाली अनेक
 रूपोंसे अंकित मुख वाली अनेक देशोंमें विचरने वाली अनेक
 प्रकारके शस्त्रोंसे सुशोभित मेद और मञ्जाको प्रिय समझने वाली
 मद्य मांस और वसाको प्रिय सबझने वाली, मार्जार और भेड़ियों
 के समान मुख वाली और तथा बिड़के समान मुख वाली तथा
 कंकु क्रौंच और क्रौंच पत्नीके समान मुख वाली; सर्पके
 यज्ञोपवीतको धारण करने वाली तथा चमड़ेको ओढ़ने वाली,
 रक्त छिद्रके हुए मुख वाली, गधे और नगाड़ेकी सगान शब्द
 करने वाली, मत्सर और क्रोध करने वाली, प्रसादा, रुचिरा-
 लया मत्ता उन्मत्तप्रमत्ता प्रहरन्ती अधिष्ठिता पिङ्गान्ता पिङ्गकेशा इस
 के अतिरिक्त कटे हुए वाली काले केशों वाली श्वेत केशों
 वाली अथवा दश सहस्र हाथियोंके सगान बल वाली और वायु
 की समान वेग वाली एक हाथ वाली एक पैर वाली एक नेत्र
 वाली, पिङ्गला, अनेक पुत्रों वाली, थोड़े पुत्रों वाली, दो पुत्र
 वाली, पुत्रमण्डिका मुखमुण्डी विडाली पूतना गन्धपूगना शीत-

गंधपूतना । शीतवातोष्णवेताली रेवती ग्रहसंज्ञिताः ॥६०॥ प्रिय-
हास्याः प्रियक्रोधाः प्रियवासाः प्रियंवदाः । सुखपदाश्वासुखदाः
सदा द्विजजनमियाः ॥ ६१ ॥ नक्तंचराः सुखोदर्काः सदा पर्वणि
दारुणाः । मातरो मातृवत्पुत्रं रक्षंतु मम नित्यशः ॥६२॥ पिता-
गहमुखोद्भूता रौद्रा रुद्राङ्गसंभवाः । कुमारस्वेदजाश्चैत्र ज्वरा वै
वैष्णवादयः ॥६३॥ महाभीमा महावीर्या दर्पोद्भूता महाबलाः ।
क्रोधनाऽक्रोधनाः क्रूराः सुरविग्रहकारिणः ॥ ६४ ॥ नक्तञ्चराः
केसरिणो दंष्ट्रिणः प्रियविग्रहाः । लंबोदरा जघनिनः पिगाक्षो
विश्वरूपिणः ॥ ६५ ॥ शक्त्यष्टिशूलपरिघमासचर्मासिपाणयः ।
पिनाकवज्रमृगशूलव्रजदंडायुधमियाः ॥ ६६ ॥ दंष्टिनः कुंठिनः
शूरा जटामुकुटधारिणः । वेदवेदांगकुशला नित्ययज्ञोपवीतिनः ६७

वातोष्णवेताली और रेवती ग्रह नाग वाली, हास्यको प्रिय सगंध
ने वाली, क्रोधको प्रिय समझने वाली, वस्त्रको प्रिय समझने
वाली, प्रिय बोलने वाली सुख देने वाली, प्रसुख देने वाली,
सर्वदा ब्राह्मणोंकी प्यारी रात्रिमें फिरने वाली तथा पर्वके समय
दारुण बन जानेवाली माताएँ मेरे पुत्रकी माताकी समान सदा रक्षा
करें पितागहके मुखसे उत्पन्न हुए, भयंकर, रुद्रके अङ्गसे उत्पन्न
हुए, कुमारके स्वेदसे उत्पन्न हुए तथा वैष्णव आदि ज्वर(इसकी
रक्षा करें) ॥५३-६३॥ महाभयंकर महावीर्य, दर्पसे उद्धत, महा-
बली, क्रोधी, अक्रोधी, क्रूर देवताओंके शरीरोंको धारण करने
वाले, रात्रिमें फिरनेवाले केसर वाले डाढ़ वाले प्रिय शरीर वाले
लम्बे पेट वाले जघन वाले पीले नेत्रों वाले विश्वरूप और हाथमें
शक्ति ऋष्टि शूल परिघ तथा डाल तलवार धारण करने वाले
और पिनाक वज्र मृगल व्रजदण्ड और आयुधोंको प्रिय सगंधने
वाले दण्डधारी कुण्डलधारी शूर जटा और मुकुटको धारण
करने वाले; वेद और वेदांगमें कुशल और सर्वदा यज्ञोपवीतको

व्योम्लापीडाः कुंडेलिनो वीराः केयूरधारिणः । नानावसनसंवी-
 ताश्चिन्वाव्यानुलेपनाः ॥६८॥ गजाश्वोर्ध्वमार्गारसिंहव्याघ्रनि-
 भाननाः । वराहोत्कूगोमायुमुगासुगृहिपाननाः ॥६९॥ बापना
 विकटाः कुञ्जाः करालालूनमूर्धनाः । सहस्रशतशथान्ये सहस्र-
 जटधारिणः ॥७०॥ श्वेताः कैलाससंकाशाः केचिद्दिनकरमभाः ।
 केचिज्जलदवर्णाभा नीलाजनचयोपमाः ॥७१॥ एकपादा द्विपा-
 दाश्च तथा त्रिशिरसोऽपरे । निर्मासाः स्थूलजघाश्च व्यादिता-
 स्या भयंकराः ॥ ७२ ॥ बापीतडागकूपेषु समुद्रेषु सरित्तु च ।
 श्मशानशैलतटेषु शून्यामारनिवासिनः ॥ ७३ ॥ एते उहाश्च
 सततं रत्नन्तु मम सर्वतः । महागणपतिर्नदी महाकालो महाबलः ।
 माहेश्वरो वैष्णवश्च ज्वरी लोकाभयावहो ॥ ७४ ॥ ग्रामणीश्चैव
 गोपालो भृंगरीटिर्गणेश्वरः । देवश्च वामदेवश्च घांटाकर्णः करं-
 धमः ॥७५॥ श्वेतमोदः कपाली च जंबकः शत्रुतापनः । मज्ज-
 को धारण करने वाले, सर्पके मुहुट धारण करने वाले कुण्डल-
 धारी केयूरधारी वीर, अनेक प्रकारके वस्त्रोंसे ढकेहुए विचित्र
 चन्दनका लेप करने वाले तथा हाथी घोड़े ऊँट मार्जार सिंह और
 व्याघ्रकी समान नेत्र वाले तथा वराह उल्लू गीदड़ मुग और चूहे
 तथा भैंसेके समान मुख वाले नीने विकट कुवड़े कराल कटे हुए
 केशों वाले सैरुड़ों और सहस्रों जटाधारी, कैलासकी समान श्वेत
 सूर्यकी किरणोंकी समान कान्ति वाले मेघोंके वर्णकी समान
 आभा वाले, नीले अञ्जनकी समान, एक पैर वाले दो पैर, दो
 शिरवाले, पाँसरहित, स्थूलजघा वाले, फटेहुए मुख वाले भयङ्कर,
 बापी तडाग कूप समुद्र नदी श्मशान पर्वत तट तथा शून्य स्थानोंमें
 रहने वाले, ये सब गूढ़ मेरी मर्जदा सब ओरसे रक्षा करें, महागण-
 पति नदी महाबली महाकाल और, लोकोंको भय देनेवाले माहेश्वर
 और, नीप्यव नागके ज्वर, ग्रामणी गोपाल गणेश्वर भृङ्गीटी बाग-

(६२४) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [नवाधिकशततम

नोन्मज्जनी चोभौ संतापनविलापनौ ॥७६॥ निजघासो घसश्चैव
स्थूणाकर्णः प्रशोपणः । उन्कामाली धमधमो उवालामाली प्रदर्शनः ॥७७॥ संग्रहणः संकुटनः काष्ठभूतः शिवंकरः । कूष्माण्डः
कुम्भमूर्धा च रोचनो वै कृतो ग्रहः ॥७८॥ अनिकेतः सुरारिघ्न-
शिवश्चशिव एव च । क्षेमकः पिशिताशी च सुरारिर्हरिलो-
चनः ॥७९॥ भीमको ग्राहकश्चैव तथैवाग्रमयो ग्रहः । उपग्रहोर्य-
कश्चैव तथा स्कन्दग्रहोपरः ॥ ८० ॥ चण्डो समवेतालस्तामसः
सुगहाकपिः । हृदयोद्वर्तनश्चैवः कुण्डाशी कंकणप्रियः ॥ ८१ ॥
हरिश्गश्रुर्गुरुमंतो मनोमारुतरंहसः । पार्वत्या रोपसंभूताः सह-
स्राणि शतानि च ॥ ८२ ॥ शक्तिमंतो श्रुतिमंतो ब्रह्मण्याः सत्य-
संगराः । सर्वकामापहंतारो द्विपतां च मृधे मृधे ८३ रात्रावहनि
दुर्गेषु कीर्तिताः सकलैर्गुणैः । तेषां गणानां पतयः सगणाः पातु
मां सदा ॥ ८४ ॥ नारदः पर्वतश्चैव गंधर्वाप्सरसां गणाः । पितरः

देव-देव-देव घण्टाकर्ण करन्धम रवेनमोद कपाली जभभक शत्रु-
तापन मज्जन उन्मज्जन तथा सन्तापन और विलापन निजघास
घस स्थूणाकर्ण प्रशोपण उन्कामाली, धमधम उवालामाली प्रदर्शन
संग्रहण सङ्कुटन काष्ठभूत शिवद्वार कूष्माण्ड कुम्भमूर्धा रोचन कृत
ग्रह अनिकेत सुरारिघ्न शिव तथा अशिव क्षेमक पिशितासी सुरारि
हरिलोचन भीमक ग्राहक तथा अग्रमय ग्रह उपग्रह अर्यक, दूसरा
स्कन्द नागक ग्रह चण्ड समवेताल तामस सुगहाकपि हृदयोद्वर्तन
चैव कुण्डाशी कंकणप्रिय, हरी मूर्ध्नी वाला गरुत्मान् और पार्वती
के रोपसे उत्पन्न हुए मन और पवनकी समान वेग वाले शक्ति-
मान् कान्तिमान् ब्रह्मण्य सत्यपतिज्ञ, सब कामनाओंको नष्ट करने
वाले और प्रत्येक संग्राममें शत्रुओंको भी मारने वाले और सकल
गुणोंसे युक्त रात्रि और दिनमें कीर्तनीय और इन गणोंके गण
सहित स्वाामी मेरी सदा रक्षा करे ॥ ६४-८४ ॥ नारद पर्वत

गार्ग्यं कार्यमाश्रयो व्याश्रयस्तदा ॥ ८५ ॥ अगस्त्यो गालवो
 गार्ग्यः शक्तिधौम्यः पराशरः कृष्णात्रेयश्च भगवानसितो देवलो
 बलः ॥ ८६ ॥ बृहस्पतिरुतथ्यश्च मार्कण्डेयः श्रुतश्रवाः । द्वैपा-
 यनोऽविदर्भश्च जैमिनिर्माठरः कठः ॥ ८७ ॥ विश्वामित्रो वसि-
 ष्ठश्च लोमशश्च महाभुनिः । उत्तंकरश्चैव रैम्यश्च पौलोमश्च
 द्वितस्त्रितः ॥ ८८ ॥ ऋषिर्षो कालवृत्तीयो मुनिर्मेधातिथिस्तथा ।
 सारस्वतो यवक्रीतः कुशिको गौतमस्तथा ॥ ८९ ॥ संवर्त ऋष्य-
 शृङ्गश्च स्वस्त्यात्रेयो विभाण्डकः । ऋचिको जमदग्निश्च तपोर्व-
 स्तपसा निधिः ॥ ९० ॥ भरद्वाजः शूलशिराः कश्यपः पुलहः
 क्रतुः । बृहद्गिर्हरिश्मश्रुविजयः कएव एव च ॥ ९१ ॥ वीतंडी
 दीर्घतापाश्च वेदगार्थोशुमाञ्छिवः । अष्टावक्रो दधीचिश्च श्वेत-
 केतुस्त्वयैव च ॥ ९२ ॥ उद्दालकः चारपाणिः शृङ्गी गौरमुखस्तथा ।
 अग्निवेश्यः शमीकश्च प्रमुचुर्मुमुचुस्तथा ॥ ९३ ॥ एते चान्येच
 ऋषयो बहवः शंसितव्रताः । मुनयः शंसितात्मानो ये चान्ये
 गंधर्व और अक्सराओंके टोले पितर कारण कार्य आधि और
 व्याधियें अगस्त्य गालव गार्ग्ये शक्ति धौम्य पराशर कृष्णात्रेय
 भगवान् असित देवल बल बृहस्पति उत्थ्य मार्कण्डेय श्रुतश्रवा
 द्वैपायन विदर्भ जैमिनि माठर कठ विश्वामित्र वसिष्ठ और महा-
 भुनि लोमश उत्तम रैम्य पौलोम द्वित त्रित कालवृत्तीय ऋषि मेधा
 तिथि मुनि सारस्वत यवक्रीत कुशिक गौतम सम्वर्त ऋष्यशृङ्ग
 स्वस्त्यात्रेय विभाण्डक ऋचिक जमदग्नि, तपोनिधि और भर-
 द्वाज शूलशिरा कश्यप पुलह क्रतु बृहद्गि हरिश्मश्रु विजय कएव
 वीतण्डी दीर्घतापा वेदगाथ अंशुमान् शिव अष्टावक्र दधीचि तथा
 श्वेतकेतु उद्दालक चारपाणि शृङ्गी तथा गौरमुख अग्निवेश्य शमीक
 प्रमुचु मुमुचु ये तथा और बहुतसे प्रशंसित व्रत वाले ऋषि और
 प्रशंसनीय आत्मा वाले मुनि और जिनका कीर्तन नहीं किया है

नानुकीर्तिताः ॥ ६४ ॥ क्रतवः श्लाघिनः शान्ताः शान्तिं कुर्वतु
 मे सदा । त्रयोऽग्नेयस्यो वेदास्त्रैविद्या कौस्तुभो मणिः ॥ ६५ ॥
 उच्चैः श्रवा इयः श्रीमान् नौद्यो धन्वन्तरिर्हरिः । अमृतं गौः सुपर्णाश्च
 दधिगौराश्च सर्पपाः ॥ ६६ ॥ शुक्लाः सुमनसः कन्याः श्वेत-
 च्छत्रं यवाक्षताः । दूर्वा हिमयं गंधाश्च बालव्यजनमेव च ॥ ६७ ॥
 तथाऽप्रतिहतं चक्रं महात्तश्चंदनं विषमम् । श्वेतो वृषः करी गत्तः
 सिंहो व्याघ्रो हयो गिरिः ॥ ६८ ॥ पृथिवी चोद्भता लाजा ब्राह्मणा
 मधुपायसम् । स्वस्तिको वर्धमानश्च नद्यावर्तः मियंगवः । श्रीफलं
 गोमयं मत्स्यो दुन्दुभिः पटहस्वनः ६९ ऋषिपत्न्यश्च कन्याश्च श्रीम-
 न्द्रासनं धनुः । रोचनारुचकश्चैव नदानां संगमोदकम् ॥ १०० ॥
 सुपर्णाः शतपत्राश्च चकोरा जीवजीवकाः । नन्दीमुखो मयूरश्च
 बद्धमुक्तागणध्वजाः ॥ १ ॥ आयुधानि प्रशस्तानि कार्यसिद्धि-
 काराणि च । पुण्यं वै विगतक्लेशं श्रीमद्वै गङ्गालान्धिवम् ॥ २ ॥
 रामेणोदाहृतं पूर्वमायुःश्रीजयहांक्षिणा । य इदं श्रावेपद्विधांस्त-

ऐसे यज्ञ करने वाले प्रशंसनीय शान्त व्यक्ति मेरे लिये सदा
 शान्ति करें, तीन अग्नि तीन वेद तीन विद्याएँ कौस्तुभ मणि उच्चैः-
 श्रवा अश्व श्रीमान्-धन्वन्तरि नौद्य, हरि अमृतं गौ गरुड छत्र जौ
 अन्नत दूर्वा सुवर्ण गन्ध बालव्यजन तथा अप्रतिहत चक्र महा-
 वृषभ श्वेत वृष मत्त हस्ती सिंह व्याघ्र अश्व गिरि छठी हुई पृथ्वी
 खीले ब्राह्मण मधु दुग्ध स्वस्तिक वर्धमान नद्यावर्त मियंगव श्री-
 फल गोमय मत्स्य दुन्दुभि, पटहस्वन, ऋषिपत्निये, कन्याएँ श्रीमान्
 भद्रासन धनुष रोचनारुचक, नदियोंके संगमोदक जल, सुपर्णा शतपत्र
 चकोर जीवजीवक नन्दीमुख मयूर मणि मोती बँधी हुई ध्वजाएँ;
 कार्यको सिद्ध करने वाले प्रशंसनीय आयुध (ये मेरी और मेरे
 पुत्रकी रक्षा करें) आयु, लक्ष्मी और जय चाहने वाले बलराज
 ने यह पुण्यपथ क्लेशरहित (करने वाला) यह स्तोत्र कहा है,

यैव शृणुगान्नरः ॥३॥ मंगलाष्टशतं स्नातो जपन्पर्वणि पर्वणि ।
 बध्वंपपखिलेशं व्याधिशोकपराभवम् ॥ ४ ॥ न च प्राप्नोति
 बौकन्यं परब्रह्म च शर्मदम् । धन्यं यशस्यमायुष्यं पवित्रं वेदसं-
 मितम् ॥ ५ ॥ श्रीमत्स्वर्ग्यं सदा पुण्यमपत्यजननं शिवम् । शुभं
 क्षेमकरं नृणां मेराजननमुत्तमम् ॥ ६ ॥ सर्वरोगपशमनं स्वकीर्ति-
 कुलवर्धनम् । श्रद्धानो दयोपेनो यः पठेदात्मवान्नरः । सर्वापाप-
 विशुद्धार्थो लभते च शुभां गतिम् ॥ १०७ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिचंशे विष्णुपर्वणि बलदेवान्हिकं
 नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ १०८ ॥

शौर्षपापनं उवाच । हने। यदैव प्रद्युम्नः शंभरेणात्मघातिना ।
 मासेस्मिन्नेव सावस्तु जाववत्याममायत ॥ १ ॥ बान्यात्मभृति

यह स्तोत्र मंगलमय है, और शोभामय है, जो विद्वान् इमको सुनता
 है, और सुनाता है ॥८५—१०३॥ और जो पुरुष मत्येक पर्वाके
 समय इसके एकसौ आठ पाठोंका जप करता है वह मनुष्य, बध
 वन्मके क्लेशको तथा व्याधि शोक और पराभवको नहीं पाता
 है और उसे विकलता नहीं होती है, तथा यह स्तोत्र परलोकमें
 भी कन्याण देने वाला है, यह धन देने वाला यश देने वाला
 और आयु देने वाला तथा वेदकी समान पवित्र है ॥१०४-१०५॥

यह शोभामय (स्तोत्र) स्वर्ग देने वाला पुण्यप्रद और सन्तान
 को उत्पन्न करने वाला शुभ कन्याण करने वाला और मनुष्यों
 को बुद्धि देने वाला, सब रोगोंको शान्त करने वाला और अपने
 कुलका, कीर्तिको बढ़ाने वाला है, जो, आत्मवान् पुरुष इसको श्रद्धा-
 पूर्णरूप पढ़ता है, उसकी आत्मा सब पापोंसे छूट जाती है और
 वह शुभ गति पाता है ॥१०६॥ १०७॥ एकसौ नौवाँ अध्याय समाप्त

शौर्षपापनतीने कहा, कि-जब आत्मघाती शम्बरने प्रद्युम्न
 का हरण किया था, उसी मासमें जाम्बवतीसे साम्ब उत्पन्न हुए

रामेण शस्त्रेषु विनियोजितः । रामादनंतरं चैव मानितः सर्वा-
 वृष्णिभिः ॥ २ ॥ जातमात्रे ततः कृष्णः शुभां तामवसत्पुरीम् ।
 निहतामित्रसामन्तः शक्रोद्यानं यथाऽगरः ॥ ३ ॥ यादवीं च श्रियं
 दृष्ट्वा स्वां श्रियं द्वेष्टि वासवः । जनार्दनभगार्च्चो व न शान्ति
 लेगिरे नृपाः ॥ ४ ॥ कस्यचित्त्वथ कालस्य पुरे वारणसाहये ।
 दुर्योधनस्य यज्ञे वै समीयुः सर्वपार्थिवाः ॥ ५ ॥ तां श्रुत्वा माधवीं
 लक्ष्मीं सपुत्रं च जनार्दनम् । पुत्रीं द्वारवतीं चैव निविष्टां सागरां-
 तरे ॥ ६ ॥ दूरीस्तैः कृतसंधानाः पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः । श्रियं
 द्रष्टुं हृषीकेशमाजग्मुः कृष्णमन्दिरम् ॥ ७ ॥ दुर्योधनमुख्याः सर्वे
 धृतराष्ट्रशात्रुणाः पाण्डवप्रमुखारश्चैव धृष्टद्युम्नादयो नृपाः ८
 पाण्ड्याश्चैलकलिंगेशा वाह्लीका द्राचिडाः खशाः । अज्ञौहिणीः

थे ॥ १ ॥ बलरामने बालपनसे ही उसे शस्त्रविद्या सिखाई थी,
 रामसे (विद्या सीखनेके) अनन्तर सब वृष्णिवंशी उसका सत्कार
 करने लगे ॥२॥ उसके उत्पन्न होनेके समय कृष्ण द्वारकापुरीमें
 ही रहते थे, उनके शत्रु और सामन्त मारे गए थे और इन्द्रके
 उद्यानमें भ्रमण करने वाले देवताकी समान बह द्वारकामें रमण
 कर रहे थे ३, यादवोंकी लक्ष्मीको देख कर वासव अपनी लक्ष्मी
 का द्वेष करता था अर्थात् अपनी लक्ष्मीको तुच्छ समझता था
 और राजे भी जनार्दनके भयसे शान्ति नहीं पाते थे ॥४॥ एक
 समय दुर्योधनके यज्ञमें वाराणसीपुरीमें सब राजे आये थे ॥५॥
 तहाँ पर उन्होंने माधवकी लक्ष्मी, पुत्रसहित जनार्दन और समुद्र
 के भीतर वर्तमान द्वारका पुरीका वृत्तान्त सुना ॥६॥ तदनन्तर
 उन्होंने दूतोंसे संधिकी, फिर पृथिवीके सब राजे (कृष्णकी)
 लक्ष्मीको देखनेके लिए कृष्णमन्दिरको चला ॥७॥ दुर्योधन-प्रमुख
 धृतराष्ट्रके वशमें चलने वाले और पाण्डवप्रमुख धृष्टद्युम्न आदि
 राजे, पाण्डव कलिङ्ग चोल देशोंके स्वामी वाह्लीकद्राचिड़ खश ये

मकर्षतो दश चाष्टौ च भूमिपाः ॥६॥ आग्मुर्यादवपुरी गोविद-
भुजपालिताम् । ते पर्वतं रैवतकं परिवार्यात्रनीश्वराः ॥ १० ॥
त्रिचिथुर्योगनास्पासु स्वासु स्वासु च भूमिपु । तत्रः श्रीमान् हृषी-
केशः सह यादवपुङ्गवैः ॥ ११ ॥ समीपं मानवेन्द्राणां निर्द्यौ
कमलेक्षणः । स तेषां नरदेवानां गन्धस्थो मधुसूदनः ॥ १२ ॥
व्यराजत यदुश्रेष्ठः शरदीव दिवाकरः । स तत्र समुदाचारं यथा
स्थानं यथा वयः ॥ १३ ॥ कृत्वा सिंहासने कृष्णः कांचने निष-
साद् ह । राजानोपि यथा स्थानं निषेदुर्विविधेष्वथ ॥ १४ ॥ सिंहा-
सनेषु चित्रेषु पीठेषु च नराधिपाः । स यादवनरेन्द्राणां समाजः
शुशुभे तदा ॥ १५ ॥ सुराणामसुराणां च सदसि ब्रह्मणो यथा ।
तेषां चित्राः कथास्तत्र प्रवृत्तास्तत्समागमे । यदूर्नां पार्थिवानां च
केशवस्योपश्रुण्वतः ॥ १६ ॥ एतस्मिन्नन्तरे वायुर्वचो मेघरवोपमः ।

राजे अठारह अत्तौहिणियोंको साथमें लेकर गोविन्दकी भुजाओंसे
पालित द्वारकापुरीको चले वे राजे रैवत पर्वत पर पहुँच तहाँ
पर चार २ कोसकी भूमि (ब्रान्नियों) में टिक गए, तदनन्तर
कमलकी समान नेत्रों वाले श्रीमान् हृषीकेश यादवोंको साथमें
लेकर मानवेन्द्रोंके पास चले, जिस प्रकार शरदऋतुमें सूर्य प्रकाश
फैलाता है, इसी प्रकार नरदेवोंके बीचमें विराजमान यदुश्रेष्ठ मधु-
सूदन शोभा पाने लगे उस समय श्रीकृष्ण अवस्था और स्थान
के अनुसार राजाओंका सत्कार करके सुवर्णके सिंहासन पर बैठ
गए, तब मनुष्योंके स्वामी राजे भी अनेक प्रकारके विचित्र सिंहा-
पर बैठ गए, उस समय यादव और राजाओंका समाज इस
प्रकार शोभा पाने लगा ॥ ८-१५ ॥ जिस प्रकार ब्रह्माजीकी
सभामें देवता और असुरोंका समाज शोभा पाता है, वे राजा
और यादव उस समाजमें बैठ कर केशवके सामने विचित्र कथाएँ
बढ़ने लगे ॥ १६ ॥ इसी समय मेघकी समान शब्द करने वाला

(६३०) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [दशाधिकशततम

तुमुलं दुर्दिनं चासीत् सविद्युत्स्तनयित्नुमत् ॥ १७ ॥ तद्दुर्दिन-
तलं भित्वा नारदः प्रत्यदृश्यत । संवेष्टितजटाभारो वीणासक्तेन
बाहुना ॥ १८ ॥ स पपात नरेन्द्राणां मध्ये सागरसन्निभः । नार-
दोग्निशिखाकारः श्रीमाञ्छकसखो मुनिः ॥ १९ ॥ तस्मिन्नि-
पतिते भूमौ नारदे मुनिपुङ्गवे । तद्द्भुतं महामेघं व्यपाकृष्यत दुर्दि-
नम् ॥ २० ॥ सोवगाह्य नरेन्द्राणां मध्ये सागरसन्निभः । आस-
नस्थं यदुश्रेष्ठमुवाच मुनिरन्ययम् ॥ २१ ॥ आश्चर्यं खलु देवा-
नामेकस्त्वं पुरुषोत्तमः । धन्यश्चासि महाबाहे लोके नान्योस्ति
करचन ॥ २२ ॥ एवमुक्तः स्मितं कृत्वा प्रत्युवाच मुनिं प्रभुः ।
आश्चर्यश्चैव धन्यश्च दक्षिणाभिः सहेत्यहम् ॥ २३ ॥ एवमुक्तो
मुनिश्रेष्ठः प्राह मध्ये महीभृताम् । कृष्णपर्याप्तवाक्प्रोस्मि गमि-

चायु चलने लगा और तुमुल दुर्दिन हो गया और विजली चमकने
लगी तथा कड़कने लगी ॥ १७ ॥ उस दुर्दिनतलको अर्थात् मेघों
से घिरे हुए आकाशको भेद कर नारदजी दिखाई दिये, उनके
जटाजूट बँध रहा था और भुजामें वीणा थी ॥ १८ ॥ अग्निकी
शिखाकी समान आकार वाले इन्द्रके मित्र समुद्रकी समान गंभीर
श्रीमान् नारदजी राजाओंके मध्यमें उतरे १९ मुनिपुङ्गव नारदजी
के भूमिमें उतरने पर वह अद्भुत महामेघ अदृश्य हो गया ॥ २० ॥
समुद्रकी समान (गंभीर) नारदजी राजाओंके बीचमें (चल
कर) आसन पर बैठे हुए यादवश्रेष्ठ कृष्णसे कहने लगे २१
हे पुरुषोत्तम ! तुम देवताओंमें एक आश्चर्यस्वरूप हो हे महाशुन ! तुम
धन्य हो, तुम्हारे सिवाय लोकमें और कोई नहीं है ॥ २२ ॥ इस
प्रकार कहने पर प्रभु कृष्णने सुस्तुरा कर मुनिको प्रत्युत्तर दिया
कि—मैं आश्चर्य और दक्षिणाओंसहित धन्य हूँ ॥ २३ ॥
इस प्रकार कहने पर नारद मुनिने राजाओंके बीचमें कहा; कि—
हे कृष्ण ! मेरे बोन्यका कार्य हो गया, अब मैं जाता हूँ (ऊपर

प्यागि यथा गतम् ॥ २४ ॥ तं प्रस्थितमभिप्रेक्ष्य पार्थिवाः प्राहुः
 रीश्वरम् । गुह्यं मन्त्रमजानन्ती वचनं नारदेरितम् ॥२५॥ आश्चर्य-
 मित्यभिहितं धन्योसीति च माधव । दक्षिणाभिः सहेत्येवं मत्पु-
 त्तोपि च नारदे ॥ २६ ॥ किमेतन्नाभिजानीतो दिव्यं मन्त्रपदं
 गहम् । यदि श्राव्यमिदं कृष्ण श्रोतुमिच्छाम तत्त्वतः ॥२७॥ तानु-
 बान ततः कृष्णः सर्वान् पार्थिवपुत्रवान् । श्रोतव्यं नारदस्त्वेप
 द्विजो वः कथयिष्यति ॥ २८ ॥ ब्रूहि नारद तत्त्वार्थं श्रोतुकामा
 महीभुजः । श्रवयाभिहितं वाक्यं मयानुपतिधापिाम् ॥ २९ ॥
 स पीठे कोश्वने शुभ्रे सूपविष्टः स्वर्लंकृतः । प्रभाव तस्य धन्यस्य
 के श्लोकमे कूर्पादि क्रमसे आश्चर्यं श्रीर धन्यत्वही कृष्ण परा-
 काष्ठा है यह नारदजीका वचन समझना चाहिये और उसके
 उत्तरमें वासुदेवका यह वचन समझना चाहिये, कि-जो विपुल
 दक्षिणा वाले यज्ञोंसे यजन करते हैं वह मेरे आश्चर्यत्व और
 धन्यत्वको जानते हैं) ॥ २४ ॥ नारदजीको जाते हुए देखकर
 नारदजीकी गुप्त बातको न समझनेके कारण राजाओंने कृष्ण
 से कहा, ॥२५॥ कि-हे माधव ! नारदजीने आपको धन्य और
 आश्चर्य कहा और आपने भी उनको मैं दक्षिणाओंके साथ आश्चर्य
 और धन्य हूँ यह मत्पुत्र दिया ॥ २६ ॥ परन्तु यह कौनसा
 दिव्य मन्त्र पद हैं इसको हम नहीं समझ सके हे कृष्ण ! यदि
 यह बात हमारे सुनने योग्य हो, तो हम इसका तत्त्व सुनना चाहते
 हैं ॥२७॥ उन सब पार्थिवोंसे कृष्णने कहा, कि-यह बात आप
 के सुनने योग्य है और यह ब्राह्मण नारदजी आपसे उस बातको
 कहेंगे ॥ २८ ॥ हे नारद ! जाँ बात तुमने मुझसे कही थी उस
 बातका तत्त्व कहिये यह राजे उस बातको सुनना चाहते हैं उस
 समय सुवर्णके बने हुए सिंहासन पर बैठे हुए अलंकृत नारद
 जीने बन्दनीय प्रभु कृष्णके प्रभावको कहना प्रारम्भ किया,

प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥३०॥ नारद उवाच । श्रूयतां भो नृपश्रेष्ठा यावन्तः
 स्थ समागताः । अस्य कृष्णस्य महतो यथा पारमहं गतः ॥३१॥
 अहं कदाचिद्गंगायास्तीरे त्रिपवणातिथिः । चराम्येकः क्षपापाये
 दृश्यमाने दिवाकरे ॥ ३२ ॥ अपश्यं गिरिकूटाभं कपालद्वयदेहि-
 नम् । क्रोशमण्डलविस्तारं तावद् द्विगुणमायतम् ॥ ३३ ॥ चतु-
 रचरणसुश्लिष्टं क्लिन्नं चैव संपंकिलम् । मग वीणाकृतिं कूर्मं
 गजचर्मचयोपमम् ॥३४॥ सोऽहं तं पाणिना स्पृष्ट्वा प्रोक्तवाञ्जल-
 चारिणम् । त्वमाश्चर्यशरीरोऽसि कूर्म धन्योऽसि मे मतः ॥३५॥
 यस्त्वमेवमभेद्याभ्यां कपालाभ्यां समावृतः ॥ तोये चरसि निःशंकः
 किञ्चिदल्पमचितयन् ॥ ३६ ॥ स मामुवाचाम्बुचरः कूर्मो मानुष-
 वत् स्वयम् । किमाश्चर्यं मयि मुने धन्यश्चाहं कथं विभो ॥३७॥

नारदजीने कहा, कि-यहाँ पर आये हुए सब राजे, मैंने इन
 कृष्णका जिस प्रकार पार पाया है उस बातको सुनो २६-३१
 एक समय मैं गंगाजीके तट पर तीन समय स्नान करता हुआ
 अतिथि-रूपमें रहता था तहाँ मैं एक दिन रात्रि बीतने पर जब
 सूर्यका उदय होगया तब विचरने लगा ॥३२॥ तहाँ मैंने पर्वत
 की समान आभा वाला दो कपालोंके देह वाला कोस भरके
 विस्तार वाला और दो कोस चौड़ा चार चरण वाला भीगा
 हुआ और कींचमें सना हुआ एक कछुआ देखा, उसका आकार
 मेरी वीणाकी समान था, और वह हाथीके चमड़ेकी ढेरके समान
 था ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ मैंने उस जलचरको हाथसे छू कर कहा,
 कि- हे कूर्म ! तुम्हारा शरीर आश्चर्य-मय है इस लिए मैं तुम्हें
 धन्य समझता हूँ ॥ ३५ ॥ तुम दोनों इन अभेद्य कपालोंसे विभू-
 पित होकर किसी बातका विचार न कर निःशंक होकर
 जलमें विचर रहे हो (यह आश्चर्य की बात है) ॥ ३६ ॥ तब
 उस जलमें फिरने वाले कछुएने मुझसे मनुष्यकी समान कहा,

गंगेयं निम्नगा धन्या किमाश्चर्यमतः परम् । यत्राहमिव सत्त्वानि
 चरन्त्ययुतशो द्विज ॥ ३८ ॥ सोऽहं कुतुहलाविष्टो नदीं गंगा-
 मुपस्थितः । धन्यासि त्वं सरिच्छ्रेष्ठे नित्यमाश्चर्यभूषिता ॥ ३९ ॥
 या त्वमेवं महादेहैः शवापदैर्यशोभिता । हृदिनी सागरं यासि
 रन्नन्ती तापसालयान् ॥ ४० ॥ एवमुक्त्वा ततो गंगा रूपिणी प्रत्य-
 भापत । नारदं देवगन्धर्व शकस्य दयितं द्विजम् ॥ ४१ ॥ मा-
 मेवं देवगन्धर्व संग्रामकलहणिय । नाहं धन्या द्विजश्रेष्ठ नैवाश्चर्योप-
 शोभिता ॥ ४२ ॥ तव सत्ये निविष्टस्य वाक्यं मां प्रतिबोधते ।
 सर्वाश्चर्यकरो लोके धन्यश्चैवाण्येवा द्विज ॥ ४३ ॥ यत्राहमिव
 विस्तीर्णाः शतशो यान्ति निम्नगाः । सोऽहं त्रिपथगावाक्यं श्रुत्वा-

कि-हे मुने ! मुझमें क्या आश्चर्य है और हे प्रभो ! मैं धन्य किस
 प्रकार हूँ ॥ ३७ ॥ यह नीचेको बहने वाली गंगा धन्य है इस
 से अधिक और क्या आश्चर्य होगा हे द्विज ! इसमें मेरी समान
 लाखों माणी विचरते रहते हे ॥ ३८ ॥ तब मैं कौतूहलमें भरकर
 गंगानदी पर गया और मैंने उससे कहा कि हे नदियोंमें श्रेष्ठ !
 तुम धन्य हो क्योंकि-तुम ऐसे २ महाकाय जीवोंसे विभूषित रह
 कर सर्वदा आश्चर्यमयी रहती हो, तुममें कुछ है और तुम तप-
 स्त्रियोंके आश्रमोंकी रक्षा करती हुई समुद्रमें जाती हो ४० इसम तार
 कहने पर गंगाजीने रूप धारण करके देवताओंके गन्धर्व इन्द्रके
 प्यारे ब्राह्मण नारदसे कहा, कि-४१ हे संग्राम और कलहको मिय
 सगभूने वाले ! हे देवगन्धर्वापेक्षी वात न (कहिये) हे द्विजश्रेष्ठ !
 न मैं धन्य हूँ और न मैं आश्चर्योंसे सुशोभित हूँ ॥ ४२ ॥ सत्य
 में स्थित रहने वाले आपका वाक्य मुझे स्मरण दिलाता है कि-
 संसारमें समुद्र धन्य है और सबको आश्रयित करने वाला है ४३
 कि-जिसमें मेरी समान विलुत सैकड़ों नदियों सपाई चली जा
 रही हैं तब मैं गङ्गाजीके वाक्यको सुन कर समुद्रके पास पहुँच

एवमुपस्थितः ॥४४॥ आश्चर्यं खलु लोकानां धन्यश्चासि महा-
 एव । येन खल्वसि योनिस्त्वमंपसां सलिलेश्वरः ॥४५॥स्थाने
 त्वां वारिवाहिन्यः सरितो लोकपावनाः । इमाः समभिगच्छन्ति
 पत्न्यो लोकनपस्कृताः ॥ ४६ ॥ समुद्रस्त्वेवमुक्तस्तु ततो माग-
 वदद्वयः । स्वजलौघतलं भित्त्वा व्युत्थिनः सवनेरितः ॥ ४७ ॥
 मा मैवं देवगन्धर्व नास्म्यश्चर्यो द्विजर्षभ । वसुधैवम्, मुने धन्या
 यत्राहमुपरि स्थितः ॥ ४८ ॥ ऋते तु पृथिवी लोके किमाश्चर्य-
 मतः परम् । सोहं सागरवाक्येन क्षितिं क्षितितले स्थितः ॥४९॥
 कौतूहलसमाविष्टो ह्यत्रवं जगतो गतिम् । धरिन्नि देहिनां योने
 धन्या खल्वसि शोभने ॥ ५० ॥ आश्चर्यं चापि भूनेषु महत्या
 क्षमया युने । तेन खल्वसि भूतानां धरणी मनुजारणिः ॥५१॥

गया ॥ ४४ ॥ (और मैंने उससे कहा, कि-) हे समुद्र ! तुम
 मनुष्योंके लिये आश्चर्य-रूप हो और धन्य हो क्योंकि-तुम जलों
 के उत्पत्ति-स्थान हो और जलके ईश्वर हो ॥ ४५ ॥ जलको
 वहाने वाली और संसारको पवित्र करने वाली और संसार जिन
 को प्रणाम कहता है ऐसी आपकी पत्नियों जो, आपमें आती हैं
 यह उचितही है ॥ ४६ ॥ इस प्रकार कहने पर जलसे प्रेरित समुद्र
 अपने जलके भेद कर उठा और मुझसे कहने लगा ॥ ४७ ॥
 हे देवगन्धर्व ! तुम ऐसी बात न कहो, हे द्विजर्षभ ! मैं आश्चर्य-
 रूप नहीं हूँ क्योंकि-हे मुने! यह पृथ्वी धन्य है, कि- जिसके ऊपर
 मैं स्थित हूँ ॥ ४८ ॥ इस संसारमें पृथ्वीके अतिरिक्त और क्या
 आश्चर्य हो सकता है; तब मैं समुद्रके वाक्यसे पृथिवीतलमें पृथिवी
 के ऊपर खड़ा होगया ॥ ४९ ॥ और कौतूहलमें भर कर जगत्
 की गति पृथिवीसे कहने लगा, कि-हे धरिन्नि ! हे प्राणियोंकी
 उत्पत्ति-स्थान ! हे शोभने ! तू धन्य है ॥ ५० ॥ और हे वही
 गारी क्षमासे युक्त पृथिवी तू प्राणियोंमें आश्चर्य स्वरूप है, तुम

ज्ञाना त्वत्तः प्रभूता च कर्म चाम्बरगामिनाम् । ततो भूः स्तुति-
 वाक्येन सा मयोक्तेन तेजिता ॥ ५२ ॥ विहाय सहजं धैर्यं
 मत्पत्न्या मां मभापत । देवगन्धर्व मा मैवं संग्रामकलहप्रिय ॥ ५३ ॥
 नास्मि धन्या न आश्चर्या पारक्येयं धृतिर्मग । एते धन्या द्विज-
 श्रेष्ठ पर्वता धारयन्ति माम् ॥ ५४ ॥ आश्चर्याणि च दृश्यन्ते एते
 लोकस्य हेतवः । सोऽहं धरणिवाक्येन पर्वतान् समुपरिथतः ५५
 धन्या भवन्तो दृश्यन्ते बहोश्चर्याश्च भूभराः ॥ काञ्चनस्याग्ररत्नस्य
 धातूनां च विशेषणः ॥ ५६ ॥ तेन खन्वाकराः सर्वे भवन्तो
 भ्रुवि शारवताः । ते ममैतद्वचः श्रुत्वा पर्वतास्तस्थुपां वराः ५७
 ऊचुर्मा सान्त्वयुक्तानि वचांसि वनशोभिताः । ब्रह्मर्षे न वरां

मनुष्योंको धारण करने वाली और मनुष्योंकी उत्पादिका हो ५१
 तुमसे ज्ञाना उत्पन्न हुई है और आकाशगामियोंके कर्म भी तुम
 पर सिद्ध होते हैं, तब मेरे कहे हुए स्तुतिवाक्योंसे पृथिवी जन्म हो
 गई ॥ ५२ ॥ और उसने अपने स्वाभाविक धैर्यको छोड़ कर
 मत्पत्न्या हो मुझसे कहा; कि-हे देवगन्धर्व ! हे संग्राम और कलह
 को प्रिय समझने वाले ! तुम ऐसी बात मत कहो ॥ ५३ ॥ न
 मैं धन्य हूँ न आश्चर्यस्वरूप हूँ मैं दूसरेके आश्रयसे ही इस
 सबको धारण कर रही हूँ, हे द्विजश्रेष्ठ! यह पर्वत धन्य हैं येही मुझे
 धारण कर रहे हैं ॥ ५४ ॥ यह संसारकी स्थितिके कारण हैं
 और आश्चर्यसे दीख रहे हैं तब मैं पृथिवीके वाक्य सुन कर पर्वतों
 के पास गया ॥ ५५ ॥ (और उनसे कहा, कि-) आप धन्य हैं
 आपमें बहुतसे आश्चर्य दीखते हैं आप सुवर्ण, बहिरा २ रत्न,
 पृथिवी और अधिकतर धातुओंको धारण करने वाले हैं ॥ ५६ ॥
 इस लिये आप खानरूप हैं और पृथ्वीमें सर्वदा रहते हैं मेरे इस
 वचनको सुन कर स्थिर रहने वालोंमें श्रेष्ठ वनोंसे सुशोभित पर्वतों
 ने मुझे सम्भ्रान्तिते हुये कहा, कि-हे ब्रह्मर्षे! हम धन्य नहीं हैं और

धन्या नाप्याश्चर्याणि सन्ति नः । ब्रह्मा प्रजापतिर्धन्यः सर्वा
 र्चर्याः सुरेष्वपि ॥ ५८ ॥ सोऽहं प्रजापतिं गत्वा सर्वमभवगव्य-
 यम् । तस्य वाक्यस्य पर्यायपर्याप्तमिव लक्ष्ये ॥ ५९ ॥ सोऽहं
 पितामहं देवं लोकयोनिं चतुर्मुखम् । स्तोस्तुं पश्चादुपगतः प्रणतो-
 ऽवनताननः ॥ ६० ॥ सोऽहं वाक्यसमाप्त्यर्थं श्रावये पञ्चयोनि-
 जम् । आश्चर्यं भगवानेको धन्योऽसि जगतो गुरुः ॥ ६१ ॥ न
 किञ्चिदन्यत् पश्यामि भूतं यद्भवता समम् । त्वत्तः सर्वमिदं जातं
 जगत् स्थावरजङ्गमम् ॥ ६२ ॥ सदेवदानवा मर्त्या लोकभूतेन्द्रिया-
 त्मकाः । भवन्ति सर्वदेवेश दृष्ट्वा सर्वमिदं जगत् ॥ ६३ ॥ तेन
 खल्वसि देवानां देवदेवः सनातनः । तेषामेवासि यत्स्रष्टा लोका-
 नामादिसम्भवः ॥ ६४ ॥ ततो गां ग्राह भगवान् ब्रह्मा लोक-

न हममें कुछ आश्चर्य है, प्रजापति ब्रह्मा धन्य है और वह देवताओं
 में भी परम आश्चर्यस्वरूप हैं ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ तब मैंने सर्वोंके
 उत्पत्ति स्थान अच्युत प्रजापतिके पास जाकर उस वाक्यके पर्याय
 स्वरूप पूर्णलक्षण उनमें देखे ॥ ५९ ॥ तब मैं संसारके उत्पत्ति-
 स्थान चार मुखवाले पितामहके पास जा उनको प्रणाम कर
 मस्तकको झुका कर उनकी स्तुति करने लगा ॥ ६० ॥
 तदनन्तर मैंने वाक्य समाप्त करनेके लिए पञ्चयोनियो सुनाया,
 कि-आप एक आश्चर्य-स्वरूप हैं जगत्के गुरु हैं और धन्य है
 मुझे आपकी समान और कोई प्राणी नहीं दीखता, यह सब
 स्थावर जंगम आपसे ही उत्पन्न हुआ है ॥ ६१ ॥ हे देवेश !
 इस सब जगत्को देख कर (मैंने विचारा है कि-) यह सब देव
 दानव मनुष्य संसार पञ्चभूत इन्द्रिय और आत्माएँ आपसे ही
 उत्पन्न हुई हैं ॥ ६२ ॥ इस लिए आप देवताओंके भी देनता हैं
 और सनातन हैं आप उनके रचने वाले हैं इस लिये लोकोंसे
 पहिले उत्पन्न हुए हैं ॥ ६४ ॥ तब मुझसे लोकोंके पितामह

पितामहः । धन्याश्चर्याश्रितैर्वाक्यैः किं मां नारद भाषसे ॥६५॥
 आश्चर्यं परमं वेदा धन्या वेदाश्च नारद । ये लोकान् धार-
 यन्ति स्म वेदास्तत्त्वार्थदर्शिनः ६६ ऋक्सामयजुषां सत्यमथर्वणि-
 च यन्मतम् । तन्मयं विद्धि । मां विप्र धृतोऽहं तैर्मया च ते ॥६७॥
 पारमेष्ठ्येन वाक्येन नोदितोऽहं स्वयम्भुवा । वेदोपस्थानिकां चक्रे
 गतिसंस्थानविस्तरात् ॥ ६८ ॥ सोऽहं स्वयम्भूवचनाद् वेदान्को
 समुपस्थितः । अत्रोचं तांश्च चतुरो मन्त्रमवचनान्वितान् ॥६९॥
 धन्या भवन्तः पुण्याश्च नित्यमाश्चर्यभूषिताः । आधाराश्चैव विप्रा-
 णामेवमाह प्रजापतिः ॥ ७० ॥ स्वयम्भुवोपीह परं भवत्सु मन्त्र-
 गागतम् । युष्मत्परतरं नास्ति श्रुत्या वा तपसापि वा ॥ ७१ ॥
 प्रत्युष्मस्ते ततो चाक्यं वेदा मामभितः स्थितः । आश्चर्याश्चैव

भगवान् ब्रह्माजीने कहा, हे नारद ! तुम मुझसे धन्य २ आश्चर्य
 आश्चर्य आदि क्या बातें कर रहे हो ॥ ६५ ॥ हे नारद ! परम
 आश्चर्य तो वेद हैं, कि-जो लोकोंको धारण कर रहे हैं वे
 तत्त्वार्थ दर्शी हैं ॥ ६६ ॥ ऋग्वेद सामवेद और अथर्व वेदमें
 जो सत्य सिद्धान्त हैं मुझे तुम उनसे ही बना हुआ जानो, हे
 विप्र ! वे मुझे धारण कर रहे हैं और मैं उनको धारण कर रहा
 हूँ ६७ परमेष्ठी ब्रह्माजीके वाक्यसे प्रेरित होकर मैं अपनी बुद्धि
 के विस्तारसे वेदोंका उपस्थान करने लगा ॥ ६८ ॥ इस प्रकार
 मैं ब्रह्माजीके वचनसे वेदोंके पास पहुँचा और उन मन्त्रोंके भाष्यों
 से युक्त चारों वेदोंसे कहने लगा, कि- ॥ ६९ ॥ आप धन्य हैं
 पुण्यमय हैं और सर्वदा आश्चर्योंसे विभूषित रहते हैं और प्रजा-
 पतिने कहा है, कि आप विप्रोंके आधार हैं ॥७०॥ ब्रह्माजीको
 भी आपका परम विश्वास है कि-तपमें और श्रुतिमें आपसे अधिक
 और कोई नहीं है ॥ ७१ ॥ उस समय मेरे चारों ओर खड़े हुए
 वेदोंने मुझसे कहा, कि आत्मपरायण यज्ञ आश्चर्यस्वरूप और

धन्याश्च यज्ञाश्चात्मपरायणाः ॥७२॥ यज्ञार्थं च वयं सृष्टा धात्रा
 येन स्म नारद । तदस्माकं परो यज्ञो न वयं स्ववशे स्थिताः ७३
 स्वयम्भुवः परा वेदा वेदानां क्रतवः पराः । ततोऽहमब्रुवं यज्ञान्
 बृहद्वाग्भिः पुरस्कृतान् ॥ ७४ ॥ भो यज्ञाः परमं तेजो युष्मासु
 खलु लक्ष्यते । ब्रह्मणाभिहितं वाक्यं यच्च वेदैरुदीरितम् ॥७५॥
 आश्चर्यमन्यन्लोकेस्मिन् भवद्द्रभ्यो नाभिगम्यते । धन्याः खलु
 भवंतो ये द्विजातीनां स्ववंशजाः ॥ ७६ ॥ तेऽपि खल्वग्नेयस्तृप्तिं
 युष्माभिर्यान्ति तर्पिताः । भागैश्च निदिशाः सर्वे मन्त्रैश्चैव
 महर्षयः ॥ ७७ ॥ अग्निष्टोमादयो यज्ञा मग वाक्यादनन्तरम् ।
 प्रत्युचुर्मा ततो वाक्यं सर्वं यूपध्वजाः स्थिताः ॥७८॥ आश्चर्य-
 शब्दो नास्मासु धन्यशब्दोपि वा मुने । आश्चर्यं परमं विष्णुः स
 हस्माकं परा गतिः ॥ ७९ ॥ यदाज्यं वयमश्नीमो सुतमग्निषु
 पावनम् तत्सर्वं पुण्डरीकाक्षो लोकमूर्तिः प्रयच्छति।सोऽहं विष्णो-

धन्य हैं ॥ ७२ ॥ हे नारद ! धाताने हमें यज्ञोंके लिए रचा है
 इससे यज्ञ हमसे पर हैं और हम अपने वशमें स्थित नहीं हैं ७३
 वेद स्वयम्भू ब्रह्माजीसे पर (श्रेष्ठ)हैं, यज्ञ वेदोंसे श्रेष्ठ हैं, उस समय
 मैंने अनेक गन्त्रोंसे पुरस्कृत वेदोंसे कहा, कि-॥ ७४ ॥ हे यज्ञों !
 ब्रह्माजीने और वेदोंने जो बात यही है, उससे तुममें परम तेज
 गतीत होता है ॥७५॥ इस लोकमें आपके अतिरिक्त और कोई
 आश्चर्य नहीं दीखता, आप द्विजातियोंके वंशके हैं, अतः धन्य
 हैं ॥७६॥ अग्नियों भी आपके तृप्त करने पर तृप्त होती है, आप
 के द्वारा भागोंमें देवता और गन्त्रोंसे ऋषि तृप्त होते हैं ॥७७॥
 मेरी बातके अनन्तर यूपोंकी ध्वजा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञोंने
 मुझसे कहा, कि-॥ ७८ ॥ हे मुने ! आश्चर्य शब्द और धन्य
 शब्द हममें चरितार्थ नहीं होसकता, क्योंकि-परम आश्चर्य तो
 विष्णु हैं, वही हमारी परम गति है ॥७९॥ हम अग्निमें होमे हुए

गतिं मेष्पुरिह सम्प्रतितो भुवि । दृष्ट्वायं यया कृष्णो भवद्भि
 रिह संवृतः ॥ ८१ ॥ यन्मयाभिहतो होय त्वगाथर्व जनार्दन ।
 धन्यश्चासीति भवतां मध्यस्थो ह्यत्र पार्थिवाः ॥ ८२ ॥ मत्पुत्रो ह
 मनेनाथ वाक्यस्यास्य यदुत्तरम् । दक्षिणाभिः सहेत्येवं पर्याप्तं
 वचनं मम ॥ ८३ ॥ यज्ञानां हि गतिर्विष्णुः सर्वेषां सहदक्षिणः ।
 दक्षिणाभिः सहेत्येवं प्रश्नो मम समाप्तवान् ॥ ८४ ॥ कूर्मेणाभि-
 हितं पूर्वं पारंपर्यादिहागतम् । सदक्षिणोस्मिन्पुरुषे तद्वाक्यं प्रति-
 पादितम् ॥ ८५ ॥ दक्षिणाभिः सहेत्येवं पर्याप्तं वचनं मम । यज्ञानां
 च गतिर्विष्णुः सर्वेषां च सदक्षिणः ॥ ८६ ॥ यन्मया भवन्तः
 पृच्छन्ति वाक्यस्यास्य विनिर्णयम् । तदेतत्सर्वमाल्यातं साधयापि
 जिस पवित्र घृतको खाते हैं, उसको हमें लोकमूर्ति पुण्डरीकाक्ष
 ही देते हैं ८० तब मैं विष्णुकी गतिके। पानेके लिए पृथ्वीमें अब
 आया था, सो मैंने यहाँ पर विष्णुको आपसे घिरा हुआ देखा ८१
 और हे राजाओं ! मैंने आपके बीचमें खड़े होकर इनसे जो कहा
 था, कि-हे जनार्दन ! आप आश्चर्यस्वरूप हैं और धन्य है ८२
 तब इन्होंने उसका यह उत्तर दिया था, कि-दक्षिणापूर्वक यज्ञ
 करनेसे, इस वचनका (मेरे आश्चर्यत्व और धन्यत्वका) पता लग
 सकता है ८३ दक्षिणाओं सहित (यज्ञस्वरूप) विष्णु यज्ञोंकी
 गति है, अत एव इन्होंने दक्षिणाओं सहित यह उत्तर देकर मेरे
 प्रश्नको समाप्त कर दिया था ॥ ८४ ॥ कूर्मने पहिले जिस बातको
 कहा था, वह बात परम्परासे यहाँ तक पहुँच गई और इन सदक्षिण
 पुरुषमें वह (आश्चर्यत्व और धन्यत्वरूप) बात घट गई ॥ ८५ ॥
 मेरे वाक्यका यह ठीक उत्तर है, कि-दक्षिणाओं सहित (यज्ञ
 करनेसे ही विष्णुका रूप समझा जा सकता है, विष्णु सब सदक्षिण
 यज्ञोंकी गति है ॥ ८६ ॥ आपने मुझसे इस वाक्यका अर्थ निर्णय
 करनेके लिए कहा था, सो मैंने सब बात आपसे कह दी, अब

यथागतम् ॥ ८७ ॥ नारदे तु गते स्वर्गं सर्वे ते पृथिवीभुजः ।
विस्मिताः स्वानि राष्ट्राणि जग्मुः सवलवाहताः ॥ ८८ ॥ जना-
र्दनोपि सहितो यदुभिः पावकोपमैः । स्वमेव भवनं वीरो विवेश
यदुनन्दनः ॥ ८९ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि धन्योपाख्यानं
नाम दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥

जनमेजय उवाच । भूय एव महाबाहोः कृष्णस्य जगतां पतेः ।
माहात्म्यां श्रोतुमिच्छामि परमं द्विजसत्तम ॥ १ ॥ न हि मे वृत्ति-
रस्तीह श्रृण्वतस्तस्य धीमतः । कर्मणामनुसन्धानं पुराणस्य महा-
त्मनः ॥ २ ॥ वैशम्पायन उवाच । नान्तः शक्यः प्रभावस्य वक्तुं
वर्णशतैरपि । गोविन्दस्य महाराज श्रुपतामिदमद्भुतम् ॥ ३ ॥ शर-
तल्पे शयानेन भीष्मेण परिचोदितः । गाण्डीवधन्वा वीभत्सु-
र्माहात्म्यं केशवस्य यत् ॥ ४ ॥ राजा मध्ये महाराज ज्येष्ठं आतर-

में अपने कार्योंके साधनेके लिये जाता हूँ ८७ नारदजीके स्वर्ग
को चले जाने पर सब राजे भी परम विस्मित होते हुए अपने २
सेनादलको साथमें लेकर अपने २ नगरोंको चले गए ८८ और
यदुनन्दन वीर जनार्दन भी अग्निकी समान यादवोंके साथ अपने
घरमें घुसे ८९ एक सौ दशवाँ अध्याय समाप्त ॥ ११० ॥

जनमेजयने कहा, कि-हे द्विजसत्तम । मैं जगत्के स्वामी महा-
भुज कृष्णके माहात्म्यको फिर सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ बुद्धि-
मान् और पुराणपुरुष महात्मा कृष्णके कर्मोंको अनुक्रमसे सुन
कर भी मुझे अभी वृत्ति नहीं हुई है ॥ २ ॥ वैशम्पायनजीने
कहा, कि-हे महाराज । गोविन्दका प्रभाव सैकड़ों वर्ष कहने पर
भी समाप्त नहीं हो सकता, अब तुम एक अद्भुत बात सुनो ३
हे कौरव । शरशय्या पर सोते हुए भीष्मजीने गाण्डीव धनुष-
धारी अर्जुनसे कृष्णका माहात्म्य वर्णन करनेके लिए कहा था,

गम्रवीत् । युधिष्ठिरं जितागित्रमिति तच्छ्रुणु कीरव ॥५॥ अर्जुन
 उवाच । पुराहं द्वारकां यातः सम्बन्धीनवलोककः । न्यनसं पूजि-
 तस्तत्र भोजवृष्ण्यन्वकोत्तमैः ॥६॥ ततः कदाचिद्गर्मात्मा दीक्षितो
 मधुसूदनः । एकाहेन महाय हुः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥ ७ ॥ ततो
 दीक्षितमासीनमभिगम्य द्विजोत्तमः । कृष्णं विज्ञापयामास त्राहि
 त्राहीति चाब्रवीत् ॥ ८ ॥ ब्राह्मण उवाच । रत्नाधिकारो भवतः
 परित्रागस्व मां विभो । चतुर्थीशं हि धर्मस्य रक्षिता लभते फलम् ६
 वासुदेव उवाच । न भेतेष्वं द्विजश्रेष्ठ रक्षामि त्वां कुतो भयम् ।
 ब्रूहि तत्त्वेन भद्रन्ते यद्यपि स्यात् सुदुष्करम् ॥ १० ॥ ब्राह्मण
 उवाच । जातो जातो महाबाहो पुत्रो मे हियतेऽनघ । त्रयो हृता-
 श्चतुर्थं त्वं कृष्ण रक्षितुमर्हसि ॥ ११ ॥ ब्राह्मणयोः सूक्तिकालोऽथ

उस समय अर्जुनने राजाओंके मध्यमें शत्रुओंको जीतने वाले
 अपने बड़े भाई युधिष्ठिरसे कृष्णका जो माहात्म्य कहा था, उस
 को तुम सुनो ॥ ४ ॥ ५ ॥ अर्जुनने कहा था, कि-पहिले मैं
 सम्बन्धीयोंको देखनेकी इच्छासे द्वारकामें गया था, तहाँ पर मैं
 श्रेष्ठ श्रेष्ठ भोज वृष्णि और अन्धकोंसे सत्कार पाता हुआ रहने
 लगा ॥ ६ ॥ एक समय धर्मात्मा महाशुभ्र मधुसूदनने एकाह (एक
 सूक्ति वाले सोमयज्ञ) की शास्त्रोक्तरीतिसे दीक्षा ली ॥ ७ ॥
 श्रीकृष्ण दीक्षा लेकर बैठे थे, कि-एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आया और
 वह कृष्णसे त्राहि त्राहि कहने लगा ॥ ८ ॥ ब्राह्मणने कहा, कि
 रक्षा करना आपका धर्म है हे विभो ! आप मेरी रक्षा करिये,
 रक्षा करने वालेको धर्मका चौथाई फल मिलता है ॥ ९ ॥ वासु-
 देवने कहा, कि-हे द्विजश्रेष्ठ ! मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, वताओ,
 तुम्हें कहाँ भय है, तुम दुष्कर बातको भी ठीकर बतलाओ १०
 ब्राह्मणने कहा, कि-है महाशुभ्र ! मेरा पुत्र उत्पन्न होते ही हर

तत्र रक्षा विधीयताम् । यथा ध्रियेदपत्यं मे तथा कुरु जनार्दन ।
 अर्जुन उवाच । ततो मामाह गोविन्दो दीक्षितोऽहं क्रताविति ।
 रक्षा च ब्राह्मणे कार्या सर्वावस्थागतैरपि ॥ १३ ॥ श्रुत्वाहमेवं
 कृष्णस्य वचोऽवोचं नराधिप । मां नियोजय गोविन्द रक्षिष्येहं
 द्विजं भयात् ॥ १४ ॥ इत्युक्तः सस्मितं कृत्वा मामुवाच जना-
 र्दनः । रक्षसीत्येवमुक्तस्तु व्रीहितोऽस्मि नराधिप ॥ १५ ॥ ततो
 मां व्रीहितं मत्वा पुनराह जनार्दनः । गम्यतां कौरवश्रेष्ठ शक्यते
 यदि रक्षितुम् ॥ १६ ॥ त्वत्पुरोगाश्च रक्षन्तु घृष्णयन्धकमहा-
 रथाः । ऋते रागं महाबाहुं प्रद्युम्नं च महाबलम् ॥ १७ ॥ ततोऽहं

लिया जाता है, हे निष्पाप ! इस प्रकार मेरे तीन पुत्र नष्ट हो
 चुके हैं, अब आप चौथेकी रक्षा करिये ११ ब्राह्मणकी मसबका
 समय है, इस लिये आज रक्षा करिये, हे जनार्दन ! जिस प्रकार
 मेरी सन्तान बच सके तैसा करिये ॥ १३ ॥ अर्जुनने कहा, कि-
 तदनन्तर गोविन्दने मुझसे कहा, कि-मैं तो यज्ञमें दीक्षित हूँ,
 परन्तु चाहे हम किसी दशामें हों, ब्राह्मणकी रक्षा तो करनी ही
 चाहिये ॥ १३ ॥ हे नराधिप ! कृष्णके ऐसे वचनको सुन कर
 मैंने कृष्णसे कहा, कि-हे गोविन्द ! आप मुझे इस काममें नियुक्त
 कर दीजिये, तब मैं तुम्हारी महाभयसे रक्षा करूँगा ॥ १४ ॥
 यह बात कहने पर कृष्णने मुझसे मुस्कुरा कर कहा, कि-“तुम
 रक्षा कर लोगे” तब हे राजन् ! मैं लज्जित होगया ॥ १५ ॥
 तब कृष्णने मुझे लज्जित देख कर कहा; कि-हे कौरवश्रेष्ठ !
 यदि आप रक्षा कर सकते हो तो जाइये १६ महाभुज प्रद्युम्न
 और महाबली बलराजके अतिरिक्त सब वृष्णवंशी और अंशु-
 बंगी गडागशियोंके साथ तुम उस बालककी रक्षा कर सकतेहो १७
 तब मैं यादवोंकी बड़ी भारी सेनाके साथमें लेकर और उस

दृष्टिष्यसैन्येन महता परिवारितः । तगग्रतो द्विजं कृत्वा प्रयातः
सह सेनया ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिर्षो विष्णुपर्वणि वासुदेवमाहात्म्ये
एकादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥

अर्जुन उवाच । सुहूर्तेन चर्षां ग्रामं तं प्राप्य भरतर्षभ । विश्रान्त-
बाहनाः सर्वे निवासापोपसंस्थिताः ॥१॥ ततो ग्रामस्य मध्येऽहं
निविष्टः क्रुहनन्दन । सगन्ताद् दृष्टिष्यसैन्येन महता परिवारितः २
ततः शकुनयो दीप्ता मृगाश्च क्रूरभाषिणः । दीप्तार्गा दिशि
षासन्तो भयमावेदयन्ति मे ॥ ३ ॥ सन्ध्यारागो जपावर्णो भानु-
मांश्चैव निष्पभः । पपात महती चोल्का पृथिवी चाप्यकम्पगतः
तान् समीक्ष्य महोत्पातान् दारुणाञ्ज्ज्वोमहर्षणान् । योगमाज्ञापयं
तत्र जनस्योत्सुकचेतसः ॥ ५ ॥ युयुधानपुरोगोश्च दृष्ट्वापन्धक-
महारथाः । सर्वे युक्तरथाः सज्जाः स्वयं चाहं तथाऽभवम् ॥६॥

ब्राह्मणको आगे करके चला ॥ १८ ॥ एकसौ ग्यारहवाँ अध्याय
समाप्त ॥ १११ ॥

अर्जुनने कहा, कि-हे भरतर्षभ । हम सुहूर्त भरमें ही उस ग्राम
में पहुँच गए और अपने बाहनोंको विश्राम देनेके और निवास
करनेके लिए टिक गए हे क्रुहनन्दन । उस समय मैं भी ग्रामके
बीचमें बड़ी भारी सेनाओंके साथ टिक गया २ उस समय प्रदीप्त
पत्नी क्रूरभाषी मृग प्रदीप्त दिशामें शब्द करके मुझे भयकी सूचना
देने लगे । उस समय सन्ध्याराग जपा वर्णका होगया और सूर्यकी
कान्ति फीकी पड़ गई, बड़ी भारी उल्का गिर पड़ी और पृथ्वी-
काँपने लगी ४ इन लोपर्षण दारुण उत्पातोंको देख कर, मैंने
उत्सुक चित्त वाली सेनाको तयार रहनेकी आज्ञा दी ५ युयुधान
आदि सब दृष्टिष्यवंशी और अन्धकवंशी महारथी तयार होकर
रथमें बैठ गए और मैं भी बैठ गया ६ आधी रात बीतने पर

गतेऽर्धरात्रसमये ब्राह्मणो भयविकलवः । उपागम्य भयादस्मान्-
निदं वचनमब्रवीत् ॥७॥ कालोऽयं समनुपाप्तो ब्राह्मण्याः प्रस-
वस्य मे । तथा भवन्तस्तिष्ठन्तु न भवेद्दञ्चनं यथा ॥ ८ ॥ गृहर्ता-
देव चाश्रीपं कृपणं रुदितस्वनम् । तस्य विप्रस्य भवने हियते-
ऽहियतेति च ॥ ९ ॥ अथाकाशे पुनर्वाचमश्रीपं वास्तकस्य वै ।
ऊहेति हियमाणस्य न च पश्यामि राक्षसम् ॥१०॥ ततोस्माभि-
स्तदा तात शरवर्षैः समन्ततः । विष्टम्भितदिशः सर्वा हत एव
स वालकः ॥११॥ ब्राह्मणोर्तस्वरं कृत्वा हृते तस्मिन् कुमारके ।
त्राचः सपरुषास्तीव्राः श्रावयामास मां तदा ॥१२॥ वृष्णयो हत-
संरुत्पास्तथाहं नष्टचेतनः । गामेवं हि विशेषेण ब्राह्मणः प्रत्य-
भाषत ॥१३॥ रक्षिष्यामीति चोक्तं ते न च रक्षितवानसि । शृणु

ब्राह्मण भयसे घबड़ाता हुआ हमारे पास आकर हगसे कहन
लगा, कि—७ अब मेरी स्त्रीके प्रसवका समय आगया है, इस
लिए आप इस प्रकार तयार हो जावें, जिससे धोका न होजाय
८ क्षण भरमें ही मैंने उस ब्राह्मणके घरमें कृष्ण रीतिसे रोनेका
शब्द सुना, कि-बालकको कोई छीने हुए लिये जाता है, अरे
वह ले गया ॥ ९ ॥ तदनन्तर मैंने चुराये जाते हुए बालकका
आकाशमें शब्द सुना, और मैंने यह भी सुना, कि-अब चेष्टा
कर, परन्तु मैं राक्षसों न देख सका ॥ १० ॥ हे तात ! उस
समय यह मैंने नाखोंकी वीछार कर सब दिशाओंमें बाणोंका
जाल पूर दिया परन्तु तब भी वह बालक चोरी चला ही गया ११
कुमारका हरण होने पर ब्राह्मण रोने लगा और मुझसे कठोर
वातों कहने लगा ॥१२॥ तब वृष्णिपोंके मनोरथ दब गए और
मैं भी मूढ़ता हो गया, उस समय ब्राह्मण मुझसे ही कहने लगा,
कि—१३ ॥ तूने कहा था, कि-मैं रक्षा कर लूंगा, फिर भी तू
रक्षा न कर सका, इस लिए हे दुर्मते ! तू जिन बातोंको (सुनने)

वाक् रतिदं शेषं यत्त्वगर्हसि दुर्मते ॥ १४ ॥ वृथा त्वं स्पर्धसे नित्यं
 कृष्णेनाभितयुद्धिनाय द स्यादिह गोविन्दे नैनदत्यहितं भवेत् १५
 यथा चतुर्थं धर्मस्य रक्षिता लभते फलम् । पापहापि, तथा मूढ
 भागं प्राप्नोत्परक्षिता ॥ १६ ॥ रक्षिण्यापीति चोक्तं च न च
 शक्तोऽसि रक्षितुम् । मोघं गाण्डीवमेव मोघं वीर्यं यशश्च ते ।
 अकिञ्चिदुक्तमा तं विभं तनोऽहं प्रस्थितस्तथा । सह वृष्यपंशक-
 सुतैर्वच कृष्णो महायुतिः ॥ १८ ॥ तनो द्वारवर्ती गत्वा दृष्ट्वा
 मधुनिघानिनम् । व्रीडितः शोकसाप्तो गोविन्देनोपलक्षितः १९
 स तु मां व्रीडितं दृष्ट्वा विनिन्दन् कृष्णसन्निधौ । मौढ्यं पश्यत
 मे योहं श्रद्धये क्लीवकल्पनम् ॥ २० ॥ न प्रद्युम्नो नानिरुद्धो
 न रामो नः न केशवः । यत्र शक्ताः परिव्रातुं कोऽपस्वद्वनेश्वरः ।

योग हैं, उनको सुन ॥ १४ ॥ तू अभितयुद्धि कृष्णसे व्यर्थ ही
 सार्था किया करता है, यदि गोविन्द यहाँ पर होते, तो इस प्रकार
 मेरा अनिष्ट नहीं होता ॥ १५ ॥ जिस प्रकार रत्नको धर्मका
 चौथाई फल मिलता है, हे मूढ़ ! इसी प्रकार रक्षा न करनेवाले
 को पापका भी चौथाई फल भोगना पड़ता है ॥ १६ ॥ तूने कहा,
 था, कि मैं रक्षा कर लूँगा, फिर भी तू न कर सका अतः तेरा
 गाण्डीव धनुष व्यर्थ है और तेरा वीर्य भी व्यर्थ है ॥ १७ ॥ तब
 मैं उस ब्राह्मणसे कुछ भी न कह कर वृष्य और अंशकवंशियों
 को साथमें लेकर कृष्णके पास चला ॥ १८ ॥ तब मैं द्वारका
 पुरीमें जाकर मधु दैत्यका नाश करने वाले कृष्णको देखने लगा
 उस समय गोविन्दने मुझे लज्जित और शोकसन्तप्त देखा १९
 उस समय वह ब्राह्मण मुझे कृष्णके समीप लज्जित होते हुए देख
 कर मेरी निन्दा करता हुआ कहने लगा; कि-मेरी मूर्खताको तो
 देखो जो मैंने इस क्लीवके वचन पर विश्वास कर लिया था
 प्रद्युम्न अनिरुद्ध बलराम और केशव भी जहाँ रक्षा नहीं करसकते

धिगर्जनं वृथा नादं धिगात्मश्लाघिनो धनुः । दैवापसृष्टो यो गौ-
र्यादागच्छति च दुर्मतिः ॥ २२ ॥ एवं शपति विधुषो विद्या-
मास्थान वैष्णवीम् । यथी संमिनी नीरो यत्रास्ते गगवान्
यमः ॥ २३ ॥ त्रिपापत्यमन्त्राणांस्तत्र ऐन्द्रीयगा पुरीम् । आग्नेयी
नैर्ऋती सौम्यामुदीची वाहणी तथा ॥ २४ ॥ रसातलं नाक-
पुष्टं धिष्णवान्पन्थान्युदायुधः । ततोऽन्तर्वा द्विजसुनमनिस्तीर्ण-
मनिश्रवः ॥ २५ ॥ अग्निं विविक्तुः कृष्णेन प्रशुम्नेन निषेधितः ।
दर्शये द्विनमूनुं ते मावज्ञात्मानमात्मना ॥ २६ ॥ कीर्तिं त एते
विपुलां स्थापयिष्यन्ति गानगाः । इति सम्भाष्य मां स्नेहात् स-
माश्रवास्य च भाषवः ॥ २७ ॥ सान्त्वयित्वा तु तं विप्रमिदं वच-

तहाँ दूसरा कौन रक्षा कर सकता है ? २१ इस अपनी प्रशंसा करने वाले 'मर्जु'के धनुषको वृथा ही गर्जने को और नादको धिक्कार है, पार करने ही इस दुर्मतिको मेरे साथ भेज दिया था २२ जब ब्राह्मण इस प्रकार कहने लगा, तब मैं वैष्णवी, विद्याका आश्रय लेकर, भगवान् यमराज जहाँ रहते हैं, तहाँको चल दिया ॥ २३ ॥ फिर मैं ब्राह्मणकी सन्तानका वर्णन करता हुआ इन्द्रपुरीमें पहुँचा, फिर आग्नेयी नैर्ऋति सौम्य उत्तरदिशा तथा वरुणपुरीमें भी पहुँचा २४ फिर भी हाथमें आयुध उठा कर रसातल स्वर्ग तथा दूसरे प्रकाशित स्थानोंमें गया परन्तु जध कहीं परभी ब्राह्मणका पुत्र नहीं मिला, तब मैं प्रतिज्ञामें उत्तीर्ण न होनेके कारण अग्नि में प्रवेश करना चाहने लगा, उस समय कृष्णने और प्रशुम्नने मुझे रोकते हुए कहा, कि तू अपनी आत्माका तिरस्कार न कर मैं ब्राह्मणपुत्रका तुझे दर्शन करा दूँगा । २५ । २६ । तुम्हारी विपुल कीर्तिको मनुष्य इस लोफमें स्थापित करेंगे, इस प्रकार ब्रह्मणे मुझने, भेदपूर्वक भाषण कर, और श्राव्य देकर । २७ । ब्राह्मणको भी सान्त्वना देकर यह बात कही, कि (मैं मन्त्र ठीक

नमस्वरीत् । सुग्रीवं चैन शैल्यं च मे प्रपुष्पवलाहकी ॥२८॥ येन
 यारवानिति तदा दारुकं प्रथमापन । आरोग्यं ब्राह्मणं कृष्णो
 श्वरोप्य च दारुकम् ॥ २९ ॥ यामुनाच ततः शौरिः सारथ्यं
 क्रियतामिति । ततः समास्थाय रथं कृष्णोद् ब्राह्मणः स च ।
 मयाताः स्व दिशं सौम्यामुदीचीं कौरवगण ॥ ३० ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिर्वांशे विष्णुपर्वणि वासुदेवपाहा-
 स्म्ये कृष्णस्य उदीचीगमने द्वादशाधिकशतमोऽध्यायः ११२

अर्जुन उवाच । ततः पर्वतजालानि सरितश्च वनानि च ।
 अपश्यं समतिक्रम्य सागरं बहुणालयम् ॥ १ ॥ ततोर्षमुदधिः
 साक्षाद्गुनीय जनार्दनम् । स प्राञ्जलिः समुत्थाय किं करोमीति
 चाब्रवीत् ॥ २ ॥ प्रतिपृथ म तां पूर्वां तमुदान जनार्दनः । रथ-
 पन्थानमिच्छामि स्वया दत्तं नदीपते ॥ ३ ॥ अथाब्रवीत् समुद्रस्तु
 प्राञ्जलिगरुडध्वजम् । पसीद् भगवन्नैवगन्योऽप्येवं गणितमिति ॥ ४ ॥

क्रिये देता हूँ) तदनन्तर उन्होंने दारुकमे कहा कि सुग्रीव शैल्य
 मे प्रपुष्प और चलाहक नामक घोड़ोंको (रथमें) जोनी, तदनन्तर
 कृष्णने ब्राह्मणको और दारुकको रथमें बैठा कर मुझसे कहा,
 कि-तू सारथीपन कर, हे कौरवगण ! तब मैं कृष्ण और वह
 ब्राह्मण उस रथमें बैठ कर सौम्य उत्तर दिशाकी ओर चले २८-३०
 एक सौ चारदशों अध्याय समाप्त । ११२ ।

अर्जुनने कहा, कि-नदनन्तर मैंने पर्वत नदी और वनोंको
 लाँच कर बहणके निवासस्थान समुद्रको देखा १ उस समय समुद्र
 प्रत्यक्ष हो अर्घ्य लाया और जनार्दनमे हाथ जोड़ कर कहने लगा,
 कि-मैं क्या करूँ ? जनार्दनने उसकी पूर्वाकी ग्रहण करके कहा,
 कि-हे नदीपते ! मैं चाहता हूँ, कि-आप मेरे रथके लिए मार्ग दें ३
 समुद्रने हाथ जोड़ कर जनार्दनसे कहा; कि-हे भगवन ! पसन्न
 हृत्त्रिये, ऐसा होने पर तो दूसरे भी इसी प्रकार मने जाया करेंगे ४

६४८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * त्रयोदशाधिकशततम

त्वयैव स्थापितः पूर्वमगाधोस्मि जनार्दन । त्वया प्रवर्तिते मार्गे
यास्यामि गमनीयताम् ॥ ५ ॥ अत्रोप्येवं मण्डपान्ति राजानो
दर्पमोहिताः । एषं सञ्चिन्त्य गोविन्द यत्कृतं तत् समाचर । ६ ।
वासुदेव उवाच । ब्राह्मणार्थं मदर्थं च कुरु सागर मद्रुचः । मङ्गलेन
पुमान् कश्चिद्व्यस्तं धर्षयिष्यति ॥ ७ ॥ अथाब्रवीत् समुद्रस्तु
पुनरेव जनार्दनम् । अभिशोपययाङ्गीतो वाढमेवं भविष्यति । ८ ।
शोपयाम्येष मार्गं तं येन त्वं कृष्ण यास्यसि । रथेन सह सूतेन
सध्वजेन तु केशव ॥ ९ ॥ वासुदेव उवाच । मया दत्तो वरः पूर्व
न शोपं यास्यसीति ह्यमानुषास्तेन जानीशुर्धिविधान् रत्नसंचयान्
जलं स्तंभय साधो त्वं ततो यास्याम्पहं रथी । न च कश्चित्
प्रमाणं ते रत्नानां वेत्स्यते नरः ॥ ११ ॥ सागरेण तथेत्युक्ते

हे जनार्दन ! पहिले तुमने ही मुझे अगाध वरना दिया है, अब
अप मुझो मार्ग बना दोगे, तब मैं गमनीय कहीने लगीं गा ५
और दर्पमे भरे हुए दूसरे राजे भी इसी प्रकार जाना चाहेंगे,
हे गोविन्द ! इस बातको चिन्तार कर अधिकोजो उचित जचो
नहं करिये द्वासुदेवने कहा; कि-हे समुद्र ! तुम ब्राह्मणके लिए
और मेरे लिए मेरे वननको मान लो, मेरे अतिरिक्त और कोई
मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार न कर सकेगा ॥७॥ उस समय शाप
के समयसे दरे हुए समुद्रने जनार्दनसे बहुत अच्छा ऐता ही होगा,
कह दिया ८ हे केशव ! तुम सूत्र ध्वजा और रथके साथ जिस
मार्गसे जाओगे उसे मैं सुझावे देता हूँ । ९ ॥ वासुदेवने कहा,
कि-तुम्हारे अनेक प्रकारके रत्नोंको मनुष्य न जान सकें इस
लिए मैंने तुम्हें वर दिया था, कि-तू नहीं सूचेगा १० हे साधो !
तुम अपने जलको स्तंभित कर दो तब मैं रथमें बैठ कर चला
जाऊंगा और तुममें कितने रत्न हैं, इस बातको भी कोई मनुष्य
नहीं जान सकेगा ११ समुद्रके इस प्रकार कहने पर हण स्तंभित

प्रस्थिताः स्मो जलेन वै । स्तम्भितेन पया भूर्पा पणिनखेन भा-
 स्नता ॥ १२ ॥ ततोऽर्णवं समुत्तीग कुरुनप्युत्तगान् वयम् । ज्ञाणेन
 समतिक्रान्ता गन्धगादनमेव च ॥ १३ ॥ तत्रस्तु पर्वताः सप्त केशव
 समुपस्थिताः । जयन्तो वै नयन्तश्च नीलो रजसपर्वतः ॥ १४ ॥
 महामेरुः स कैलास इन्द्रकूटश्च नामनः । विभ्राणा वर्णरूपाणि
 विविधान्गद्गुानि च ॥ १५ ॥ उास्थाय च गोविन्दं किं कुर्म-
 त्यब्रुवंस्तदा । ताश्चैव प्रतिजग्राह विधिवन्माधुसूदनः ॥ १६ ॥
 तानुवाच हृषीकेशः गणायामनतान् स्थितान्-विभरं गच्छतो मेऽथ
 रथमार्गः प्रदीयताम् ॥ १७ ॥ ते कृष्णस्य वचः श्रुत्वा प्रतिपृष्ट
 च पर्वताः । प्रददुः कामनो मार्गं गच्छन्तो भरतर्षभाः ॥ १८ ॥
 तत्रैवान्तर्हिताः सर्वे तदाश्नपर्वतरं गम । असक्तश्च रथो याति
 मेघशालेऽपिवांशुमान् ॥ १९ ॥ सप्तद्वीपान् ससिंधुश्च सप्त सप्तः

जल वाले और पृथ्वीमें प्रकाशवान् गणि वाले मार्ग पर चले १२
 तदनन्तर समुद्रका उबलघन करके हम ज्ञान परमें ही उत्तर कुरु-
 और गन्धगादन पर्वतको भी लाये गए ॥ १३ ॥ तदनन्तर अनेक
 प्रकारके वर्ण और रूपोंको धारण करनेवाले जयन्तविजयन्त नील
 रजत महामेरु कैलास और इन्द्रकूट नाम वाले सात पर्वत कृष्ण
 के पास आये और गोविन्दकी पूजा करके कहने लगे, कि-हम
 क्याकरें ? तब कृष्णने उनका शास्त्रोक्तरीतिसे सत्कार किया १६
 तदनन्तर उन गणाय करके नम्रतासे खड़े हुए पर्वतोंसे हृषीकेश
 ने कहा, कि-मैं जारहा हूँ, तुम विवर बना कर मेरे रथको मार्ग
 दो १७ कृष्णके बचनको सुनकर और उसको मान कर-हे भरत-
 र्षभ! पर्वतोंने गमन करनेवाले कृष्णको इच्छानुसार मार्ग दिया १८
 उस समय सब पर्वत अन्तर्धान हो गए, जब मुझे परम आश्चर्य
 हुआ तब रथ, मेघोंमें चलने वाले सूर्यकी समान, असक्त होकर
 चलने लगा १९ फिर सातों द्वीप समुद्र सात पर्वत और लोकाः

गिरीनथ । लोकालोक तथातीत्य निवेश सुमहत्तमः ॥२०॥ ततः
कदाचिद्द दुःखेन रथमूहुस्तुरङ्गगाः । पंकभूतं हि निगिर स्पर्शा-
द्विज्ञायते नृप ॥ २१ ॥ अथ पर्वतभूतं तत्तिमिरं समपद्यत । तदा-
साथ महाराज निष्पद्यन्ना हयाः स्थिताः ॥ २२ ॥ ततश्चक्रेण
गोविन्दः पाटयित्वा तपस्तदा । आकाशं दर्शयामास रथपंथान-
मुत्तमम् ॥ २३ ॥ निष्क्रम्य तपसस्तस्मादाकाशो दर्शिते तदा ।
भविष्यामीति संज्ञा मे भगं च-त्रिगतं मम ॥ २४ ॥ ततस्तेजः
पञ्चलिनमपश्यत तदाम्बरे । सर्वलोकं समाभिरय स्थितं पुरुष-
विग्रहम् ॥ २५ ॥ तं प्रविष्टो हृषीकेशो दीप्तं तेजोनिधिं तदा ।
रथ एव स्थितश्चाहं स च ब्राह्मणसत्तमः ॥ २६ ॥ सु मुहूर्ता-
त्ततः कृष्णो निश्चक्राम तदा प्रभुः । चतुरो बालकान् गृह्य ब्राह्म-
णस्यात्मजांस्तदा ॥ २७ ॥ प्रददौ ब्राह्मणायाथ पुत्रान् सर्वान्

लोक पर्वतको लोंघनेके बाद बड़े भारी अन्धकारमेंको रथ घुसा २०
तब घोड़े बड़ी कठिनतासे रथको खेवने लगे हे राजन् ! छूने पर
तहाँका अन्धकार फीचड़पा मतीत होता था, इसके उपरान्त वह
अन्धकार पर्वतसा होगया, हे महाराज ! तहाँ पहुँच कर तो
घोड़े निष्पद्यन् होकर खड़े होगए २२ तदनन्तर गोविन्दने चक्र
से अन्धकारका नाश करके रथके मार्गके लिये उत्तम आकाश
प्रकट कर दिया ॥२३॥ उस अन्धकारसे निकल कर आकाशके
दीखने पर मुझे यह विचार हुआ कि अब मैं बच जाऊँगा और
मेरा भग दूर होगया २४ तदनन्तर मैंने सबमें व्याप्त पुरुषविग्रह-
धारी पञ्चलिन तेजको खड़े हुए देखा २५ तदनन्तर मैं और वह
श्रेष्ठ ब्राह्मण तो रथमें ही बैठे रहे और हृषीकेश उस मदीप्त तेज
के खजानेमें घुम गए २६ फिर क्षण भरमें ही प्रभु कृष्ण ब्राह्मण
के चारों बालकोंको लेकर तहाँसे निकल आये २७ तदनन्तर
जनार्दनने ब्राह्मणको सब पुत्र देदिये, उनमें तीन पहिले दरें हुए

जनार्दनः । त्रयः पूर्वं हृता ये च सद्यो जानश्च बालकः ॥ २८ ॥
 महृष्टो ब्राह्मणस्तत्र पुत्रान् दृष्ट्वा पुनः प्रभो । अहं च परमप्रीतो
 विस्मितश्चाभवं तदा ॥ २९ ॥ ततो धर्मं पुनः सर्वे ब्राह्मणस्य
 च ते सुताः । यथा गता निवृत्ताः स्म तथैव भरतर्षभ ॥ ३० ॥
 ततः स्म द्वारकां प्राप्ताः क्षणेन नृपसत्तम । असंप्राप्तेऽर्धदिवसे
 विस्मितोऽहं पुनः पुनः ॥ ३१ ॥ सपुत्रं भोजयित्वा तु द्विजं कृष्णो
 महायशाः । धनेन वर्णयित्वा च गृहं गस्थाभयनदा ॥ ३२ ॥
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिर्वांशे विष्णुपर्वणि वासुदेवगाहा-
 त्म्ये ब्राह्मणपुत्रानयने त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥

अर्जुन उवाच । ततः कृष्णो भोजयित्वा शनानि सुबहूनि च ।
 विप्राणामृषिकन्यानां कृतकृत्योऽभवत्तदा ॥ १ ॥ ततः सह मया
 भुक्त्या वृष्टिगभोजैश्च सर्वादा । विनिश्चयन कथा दिव्याः कथ-
 यामास भारत ॥ २ ॥ ततः कथान्ते तत्राहमधिगम्य जनार्दनम् ।
 ये और एक तुरतका उत्पन्न हुआ बालक था २८ हे प्रभो ! उस
 समय अपने बालकोंको देखकर ब्राह्मण मसन्न होगया और मैं
 भी परम मसन्न हुआ और विस्मित हुआ २९ हे भरतर्षभ !
 इसके उपरान्त हम और ब्राह्मणके सब पुत्र जिस प्रकार आये थे,
 वसी प्रकार लौट चले ३० हे नृपसत्तम ! उस समय हम क्षण भरमें ही
 द्वारकापुरीमें पहुँच गए उस समय आधा दिन भी नहीं बीता था
 तब मैं फिर विस्मयमें पड़ गया ३१ तदनन्तर महायशस्वी कृष्ण
 ने ब्राह्मणकी और उसके पुत्रोंकी भोजन कर तथा उसको धन
 देकर घरकी भेज दिया ३२ एकपौ तेरहवाँ अध्याय समाप्त ११३

अर्जुनने कहा, कि-तदनन्तर कृष्ण सैं कहीं ऋषिकन्य ब्राह्मणोंको
 भोजन करा कर कृतकृत्य हुए १ हे भारत ! फिर कृष्ण मेरे साथ
 और वृष्टिगवंशी तथा भोजर्वांशियोंके साथ भोजन करके विनिश्च
 दिव्य कथाएँ कहने लगे २ तदनन्तर बात चीत समाप्त होने पर

(६५२) * महाभारत-इतिवंशपर्व २ * [चतुर्दशाधिकशततम

अपृच्छं तद्यथावृत्तं कृष्णं गृह्णद्दृष्टवानहम् ॥ ३ ॥ कथं समुद्रः
स्तन्वोदः कृतस्तु कपलेक्षण । पर्वतानां च विवरं कृतां तत्कथ-
यन्पुन ॥ ४ ॥ तपसाञ्च कथं घोरं घनं चक्रेण पाटितम् । तच्च
मत्परमं तेजः प्रविष्टोसि कथं च तत् ॥ ५ ॥ किमर्थं तेन ते
वालास्तदा चापहृताः प्रभो । यच्च ते दीर्घमन्वान संज्ञितं तत्
कथयुनः ॥ ६ ॥ कथं चान्पेन कालेन कृतां तत्तद्गनागनम् । एतत्
सर्गं यथाट्टतमावच्च मम केशव ॥ ७ ॥ वासुदेव उवाच । महर्षी-
नार्थं ते वाला हनास्तेन महात्मा । विप्रार्थमेव्यते कृष्णो नागच्छे-
दन्यथेति ह ॥ ८ ॥ ब्रह्मतेजोमयं दिव्यं महद्गृह्णद्दृष्टवानसि । अहं
स भरतश्रेष्ठ मतेजस्तत् सनातनम् ॥ ९ ॥ प्रकृतिः सा मम परा

मैं कृष्णके पास गया और मैंने जो बात देखी थी, उसके सम्बंध
में कृष्णसे ब्रह्मने लगा है कि हे कमलनेत्र ! तुमने समुद्रके जल
का किस प्रकार स्तंभित कर दिया था और हे अन्पुन ! आप
ने पर्वतोंमें विवर भी कैसे कर दिया था ॥ ४ ॥ और आपने
उस घोर अन्धकारसे अपने चक्रसे किस प्रकार नष्ट कर डाला
था ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! उस (तेजोमय पुरुष) ने उन बालकोंको
व्यों हर लिया था, और आपने (आनेके समय) उस मार्गको
किस प्रकार संज्ञित कर दिया था ॥ ६ ॥ और आप थोड़े ही
समयमें तहाँ किस प्रकार गए और आये थे हे केशव ! यह सब
बातें मुझसे कहिये ॥ ७ ॥ वासुदेवने कहा, कि-उस महात्मा
(बड़े भारी जगत्की रक्षाके अंकुर भूत तेज के अभिगानी)
ने मेरा दर्शन करनेके लिए उन बालकोंको हर लिया था, (उसने
सबका था, कि-) कृष्ण ब्राह्मणके लिए ही आसक्त हैं जैसे नहीं
आनेगे-हे भक्तश्रेष्ठ ! तुमने ब्रह्म तेजोमय जिस दिव्य महानका
दर्शन किया है वह मैं ही हूँ और वह मेरा सनातन तेज है अर्थात्
मैं ऐसे अंकुररूप अनेकों महानोंका फलरूप बीज हूँ) एवम् (महत्तत्त्व

व्यक्ताव्यक्ता सनातनी । यां प्रविश्य भवन्तीह मुक्ता योगविदु-
त्तमाः ॥ १० ॥ सा सांख्यानार्ता गतिः पार्थ योगिनां च तपस्वि-
नाम् । तत्पदं परमं ब्रह्म सर्वं विभजते जगत् ॥ ११ ॥ मामेव
तद्द्वयं तेजो ज्ञातुमर्हसि भारत । समुद्रः स्तम्भतोयोहमहं स्तम्भ-
पिता जलम् ॥ १२ ॥ अहं ते पर्वतास्सप्त ये दृष्टा विविधास्तवया ।
पंकभूतं हि तिमिरं दृष्टवानसि यद्दि तत् ॥ १३ ॥ अहं तमोधनी-
भूनमहमेव च पाटकः । अहं च कालो भूतानां धर्मआहं सना-
तनः ॥ १४ ॥ चन्द्रादित्यौ महाशीलाः सरितश्च सरांसि च ।
चतस्रश्च दिशः सर्वा मयैवात्मा चतुर्विधः ॥ १५ ॥ चातुर्वर्ष्यं
पत्प्रसृतं चातुराश्रम्यमेव च । चातुर्विध्यस्य कर्ताहमिति बुध्यस्व
नाम बाली) मेरी पंक्ति (ज्येष्ठ होनेसे अहंकार आदिसे) श्रेष्ठ है,
बहः (दशगणसे) व्यक्त है और (द्वगणसे) अव्यक्त है, योग-
वेत्ता उत्तम पुरुष उसमें प्रवेश कर मुक्त होजाते हैं, अर्थात् उस
को जानकर चित्त जड़का विवेक (सर्वपुरुषान्यताख्याति) होता
है १० हे पार्थ/वह सांख्य बालोंकी और तपस्वियों योगियोंकी गति
है, वह तत्पद है, वह परब्रह्म सब जगत्का विभाग करता है ११
(जिस प्रकार वह मेरा रूप है, इसी प्रकार और दृश्य भी मेरे रूप
हैं, इसी बातको दिखाते हुए कृष्णने कहा कि-हे) भारत ! वह धनी-
भूत तेज तुम मुझे ही समझो, स्तंभित जलबाला समुद्र भी मैं ही
और जलको स्तंभित करने वाला भी मैं ही हूँ ॥ १२ ॥
तुमने जिन अनेक प्रकारके सात पर्वतोंको देखा था और
जिस कीचड़से अन्यकारको देखा था वह सब मैं ही हूँ ॥ १३ ॥
मैं धनीभूत अंधकार हूँ और मैं ही उसको नष्ट करने वाला हूँ,
मैं भूतोंको काल हूँ और सनातन हूँ ॥ १४ ॥ चन्द्रमा सूर्य महा-
पर्वत नदिये सरोवर और और चारों दिशाएँ. ये सब मेरे
चारों प्रकारके रूप हैं ॥ १५ ॥ चारों वर्ण और चारों आश्रम

(६५६) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [पञ्चदशाधिकशततम

धानि स्य अद्भुतानि महाद्युतेः । असंख्येयानि दिव्यानि मृता-
न्यपि सर्वशः ॥ २ ॥ यान्यहं विविधान्यस्य श्रुत्वा मीये महा-
द्युने । मन्त्र्याः सर्वशस्वात तानि मे शृण्वतोऽथ ॥३॥ वैशम्पायन
उवाच । बहून्पार्श्वर्यभूतानि केशवस्य महात्मनः । कथितानि
महावाहो नान्तं शक्यं हि कर्मणाम् ॥ ४ ॥ गन्तुं हि भरतश्रेष्ठ
विस्तरेण सपन्ततः । अवश्यं हि मया वाच्यं लेशमात्रेण भारत
विष्णोरमितवीर्यस्य प्रथितोदारकर्मणः । आनुपूर्व्यां मवक्ष्यामि
शृणुष्वीकमना नृप ॥३॥ द्वारवत्यां निवसता यदुसिहेन धीमता ।
राष्ट्राणि नृपमुष्यानां ज्ञोभितानि महात्मनाम् ॥ ७ ॥ यद्नाम-
न्तरमेसुर्विचक्रो दानवो हतः । पुरं प्राग्ज्योतिषं गत्वा पुनस्तेन
महात्मना ॥२॥ समुद्रमध्ये दुष्टात्मा नरको दानवो हतः । वासनं

अपरिमेय कर्मोंको फिर सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ महाकान्ति-
मान् कृष्णके अनेक प्रकारके दिव्य और अद्भुत असंख्य कर्म
सुने जाते हैं ॥ २ ॥ हे महाद्युने ! कृष्णके गिन विविध चरित्रों
को सुनकर मैं प्रसन्न हो सकूँ हे निष्पाप जुने ! उन चरित्रोंको
मैं सुनना चाहता हूँ, आप सुनाइये ॥ ३ ॥ वैशम्पायनजीने कहा,
कि-हे महाद्युज ! मैंने तुझसे कृष्णके बहुतमे आश्चर्यमय कर्मों
का वर्णन किया; हे भरतश्रेष्ठ ! उनके कर्म अतिविस्तृत हैं,
अतः उनका पार नहीं पाया जासकता, तब भी हे भारत ! मैं उन
का लेशमात्र वर्णन करूँगा ॥ ४ ॥ ५ ॥ मैं मसिद्ध और उदार
कर्मवाले अमितवीर्य विष्णुके कर्मोंको क्रमशः कहता हूँ, हे राजन् !
अब तुम चित्तको एकाग्र करके सुनो द्युद्धिमान् यदुसिहने द्वारका
में रहते समय मुख्य २ महात्मा राजाओंके राज्योंको ज्युध कर
दिया था । ७। उन्होंने यादवोंके द्विद देखने वाले विचक्र नामक
दानवको मार डाला था, फिर उन महात्माने प्राग्ज्योतिषपुरमें
जाकर समुद्रके मध्यमें दुष्टात्मा नरक दानवको मार डाला था

च रणे जित्वा पारिजातो हतो बलात् ॥ ६ ॥ बरुणश्चैव भग-
वान्निर्जितो लोहिते हृदे । दन्तवक्रश्च कारुषो निहतो दक्षिणा
पथे ॥ १० ॥ शिशुपालश्च सम्पूर्णे किन्विकशते हतः । गत्वा
च शोणितपुरं शंकरेणाभिरक्षितः ॥११॥ बलेः सुतो महावीर्यो
बाणो बाहुसहस्रभृतामहामृधे महाराज जित्वा जीबन् विसर्जितः
निर्जितः पावकश्चैव गिरिमध्ये महात्मना । शान्वश्च विजितः
संख्ये सौभश्च विनिपातितः ॥१३॥ विन्नोभ्य सागरं चैव पांच-
जन्यो बशीकृतः । हयग्रीवश्च निहतो नृपारचान्ये महाबलाः १४
नरासन्यस्य निधने मोक्षिताः सर्वपार्थिवाः । रथेन जित्वा नृप-
तीन् गान्धारतनया हता ॥१५॥ भ्रष्टराज्यारश्च शोकार्ताः पाण्डवाः
परिरक्षिताः । दाहितं च धनं धोरं पुरुहूतस्य खाण्डवम् ॥१६॥

और रणमें इन्द्रको जीत कर पारिजातको बलपूर्वक छीन लिया
था । ८ । ६ । उन्होंने भगवान् बरुणको लोहितहृदमें जीत लिया
था और दक्षिणापथमें दन्तवक्र कारुषको मार डाला था ॥१०॥
और सौ गाली पूर्ण होने पर शिशुपालको भी मार डाला था
और उन्होंने शोणितपुरमें जाकर शंकरसे रक्षित बलिके महा-
वीर्य पुत्र सहस्र भुतधारी बाणासुरको महायुद्धमें जीत कर उस
को जीता हुआ ही छोड़ दिया था । ११ । १२ । और इन महात्मा
ने पर्वतके मध्यमें अग्निको भी जीत लिया था, युद्धमें शान्वको
जीत लिया था और सौभको भी गिरा दिया था ॥१२॥ और
समुद्रमें कुन्ध कर पाञ्चजन्यको बशमें कर लिया था, हयग्रीव
को तथा दूसरे महाबली राजाओंको भी मार डाला था ॥१४॥
और नरासन्यके मग्ने पर सब राजाओंको छुटा दिया था और
रथके द्वारा राजाओंको जीत कर गान्धारराजकी पुत्रीका हरण
कर लिया था ॥१५॥ और राज्यसे भ्रष्ट हुए शोकार्त पाण्डवों
को भी इन्होंने रक्षाकी थी और इन्द्रके भयंकर वन खाण्डवनको

गाण्डीवं चाग्निजा दत्तमर्जुनायोपपादितम् । दौत्यं च तत्कृतं
घोरे विग्रहे जनमेजय १७ अनेन यदुमुख्येन यदुवंशो विवर्धितः ।
कुन्त्याश्च प्रमुखे प्रोक्ता प्रतिज्ञा पाण्डवान् प्रति ॥१८॥ निवृत्ते
भारते युद्धे प्रतिदास्यामि च्वत्सुतान् । मोक्षितश्च महासेना नृमः
शापात् सुदारुणात् ॥१९॥ गवन्श्च हतः संरूपे काल इत्यभि-
विश्रुतः । घानरी च महावीर्यो, मैदो द्विविद् एष च २० विजिती
युधि दुर्धरो जाम्बवान्श्च पराजितः, सान्दीपनेस्तथा पुत्रस्तव चौध
पिता तथा ॥ २१ ॥ गतो वैवस्वतवशं जीवितो तस्य तेजसा ।
संग्रामा वह्नः प्राप्ता घोरा नरवन्नयाः २२ निहताश्च नृपाः सर्वे
कृत्वा तज्जयमद्भुतम् । जनमेजयास्य युद्धेषु यथा ते वर्णिता मया

भी इन्होंने जलवा दिया था । १६ । और अग्निका दिया हुआ
गाण्डीव भनुप भी इन्होंने अर्जुनको देदिया था और हे जनमे-
जय । इन्होंने उस भयंकर युद्धमें दूगपना भी किया था १७ इन
मुख्य पादवने पादोंके वंशको बढ़ाया था और कुन्तीके सामने
पाण्डवोंके प्रति प्रविष्टाकी थी १८ कि-में महाभारत युद्धके पूर्ण
होनेपर तेरे पुत्र तेरे अर्पण कर दूँगा और महासेनस्वी कृष्ण
ने राजा नृगको भयंकर शापसे छुड़ा दिया था १९ काल नाम
से प्रसिद्ध गवन्को भी इन्होंने युद्धमें मार डाला था और मैन्द
तथा द्विविद् नाम वाले महावीर्य युद्धमें दुर्धर्ष घानरीको भी इन्होंने
गीत लिया था और जाम्बवान्का भी पराजय किया था, सान्दी-
पनिका पुत्र और सुन्दहारे पिता जब अमराजके वशमें पड़ गए थे,
तो इन्हीके तेजसे जीवित हुए थे, इन्होंने राजाओंका क्षय करने
वाले बहुतसे संग्राम किये थे ॥ २२ ॥ हे जनमेजय । मैंने इनके
विषयवृत्तान्तका गिप्त प्रकार वर्णन किया था, इस प्रकार इन्होंने
युद्धमें सब राजाओंको मार कर ऋद्धा विजय पाई थी ॥ २३ ॥
एक सौ पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ॥ ११७ ॥

जनमेजय उवाच । मूय एव महाबाहो यदुसिंहस्य धीमतः ।
 कर्माययपरिमेयानि श्रुतानि द्विजसत्तम ॥ १ ॥ त्वत्तः श्रुगवनां
 श्रेष्ठ वासुदेवस्य धीमतः । यत्त्वया कथितं पूर्वं चाणं गणि महा-
 सुरम् ॥ २ ॥ तदहं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन । कथं च
 देवदेवस्य पुत्रत्वमसुरो गतः ॥३॥ योभिसुतः स्वयं ब्रह्मन् शंकर-
 रेण महात्मना । सहस्रासं नतेनैव सगणो गुहेन तु ॥४॥ बले-
 र्बलवतः पुत्रो ज्येष्ठो भ्रातृशतस्य यः। वृत्तो वाहुमहस्रेण दिव्यास्त्र-
 शतधारिणा ॥५॥ असंख्यैश्च महाकायैर्महाबलशतैर्वृतः । वासु-
 देवेन स कथं बाणः संख्ये पराजितः॥६॥ संख्यश्चैव युद्धार्थी
 जीवन्मुक्तः कथं च सः । वैशम्पायन उवाच । शृणुष्वविहितो
 राजन् कृष्णस्यामिततेजसः ॥ ७ ॥ मनुष्यलोके बाणोऽयम-

जनमेजयने कहा, कि-हे द्विजसत्तम ! मैंने आपसे यदुसिंह
 बुद्धिमान् महाभुज कृष्णके आरिमेग कर्म फिर सुन लिये ॥ १ ॥
 हे शास्त्रज्ञान वालोंमें श्रेष्ठ ! आपने जो महासुर बाणसे बुद्धि-
 मान् वासुदेव के (युद्ध) की जो बात कही ॥ २ ॥ उस बातको
 मैं विस्तारसे सुनना चाहता हूँ, हे तपोधन ! असुर देवदेव
 (शंकर) का पुत्र क्यों होगया था ॥३॥ हे ब्रह्मन् ! महात्मा शंकर
 स्वयं ही उसकी रक्षा करते थे और वह कार्तिकेयके और उनके
 गणोंके साथ रहता था ॥४॥ वह बलवान् बलि दैत्यका पुत्र था
 और सी भाइयोंमें बड़ा भौंडी था, उसके दिव्य अस्त्रोंको धारण
 करने वाली सहस्र भुजाएँ थीं ॥५॥ वह बड़े भारी शरीर वाले
 असंख्य महाबली (राक्षसों) से घिरा रहता था, ऐसा
 बाणासुर वासुदेवसे युद्धमें कैसे हार गया ॥ ६ ॥ और वह
 युद्धार्थी और क्रोधी था, तो भी जीवन्मुक्त किस प्रकार था,
 वैशम्पायनजीने कहा कि-हे राजन् ! अपिते तेजस्वी वासुदेवका
 मृत्युलोकमें बाणासुरके साथ जिस प्रकार महासंग्राम हुआ था,

द्विप्रहो महान् । वासुदेवेन यत्रासौ रुद्रस्कन्दसहायवान् ॥ ८ ॥
 बलीपुत्रो रणश्लाघी जित्वा जीवन् बिसर्जितः। यथा चास्य परो
 दत्तः शंकरेण महात्मना ॥ ९ ॥ नित्यं सान्निध्यतां चैव गाण-
 पत्यं तथाक्षयम् । यथा वाणस्य तद्युद्धं जीवन्मुक्तो यथा च सः ।
 यथा च देवदेवस्य पुत्रत्वं सोऽसुरो गतः । यदर्थं च महद्दुष्टं तत्-
 सर्वमखिलं शृणु ॥ ११ ॥ दृष्ट्वा वपुः कुमारस्य क्रीडतरु महा-
 त्मनः । बलिपुत्रो महावीर्यो विस्मयं परमं गतः ॥ १२ ॥ तस्य
 बुद्धिः समुत्पन्ना तपश्चर्तुं सुदुष्करम् । रुद्रस्याराधनार्थाय देवस्य
 स्थां यथा सुतः ॥ १३ ॥ ततो ग्लपयदात्मानं तपसा श्लाघ्य
 चेतसः । देवश्च परमं तोषं जगाग च सहोपया ॥ १४ ॥ नील-
 कण्ठः परां गीतिं गत्वा चाऽऽसुरमब्रवीत् । वरं वरय भद्रन्ते यत्ते

उसको तुम सुनो, इस युद्धमें जिस प्रकार रुद्र और स्कन्दकी
 सहायता पाने वाले रणश्लाघी बलिके पुत्र वाणासुरको कृष्णने
 जीता हुआ ही छोड़ दिया था, महात्मा शंकरने वाणासुरको
 जिस प्रकार वर दिया था ७-९ जिस प्रकार यह सर्वदा शिवके
 साथ रहता था और इसे जिस प्रकार अक्षय गणपतित्व मिला
 था और वाणका जिस प्रकार युद्ध हुआ था और वह जिस
 प्रकार जीता हुआ ही छूटगया था ॥ १० ॥ और जिस प्रकार
 यह असुर देवदेव शंकरका पुत्र बन गया था और जिस
 लिये यह महाभारी युद्ध हुआ था, उन सब बातोंको तुम
 सुनो ॥ ११ ॥ जीड़ा करते हुए महात्मा स्कन्दके शरीरको
 देख कर महावीर्यवान् बलिपुत्र परम विस्मित हुआ ॥ १२ ॥ तब
 उसने ऐसा दुष्कर तप करना चाहा कि-जिससे मैं दुष्कर तप
 करके रुद्रका पुत्र बन जाऊँ १३ तदनन्तर उसने (तप करके मैं
 महातपस्वी हूँ इस प्रकार) अपनी प्रशंसाकी तब उस प्रशंसनीय
 बलि वाले पर महादेव और पार्वती परम प्रसन्न हुए १४ तब

मनुसि वर्तते ॥ १५ ॥ अथ बाणोऽब्रवीद्वाक्यं देवदेवं महेश्वरम् ।
 देव्याः पुत्रत्वमिच्छामि त्वया दत्तं त्रिलोचन ॥ १६ ॥ शंकरस्तु
 तथेन्युक्त्वा रुद्राणीमिदमब्रवीत् । कनीयान् कार्तिकेयस्य पुत्रोऽयं
 प्रतिगृह्यताम् ॥ १७ ॥ यत्रोत्थितो महासेनः सोग्निजो रुधिरं पुरे ।
 तत्रोद्देशे पुरं चास्य भविष्यति न संशयः ॥ १८ ॥ नाम्ना तच्छो-
 णितपुरं भविष्यति पुरोत्तमम् । गयागिरुत्तं श्रीमन्तं न कश्चित्
 प्रसहिष्यति ॥ १९ ॥ ततः स निवसन् बाणः पुरे शोणितसाहये ।
 राज्यं प्रशासते नित्यं क्षोभयन् सर्वदेवताः ॥ २० ॥ अच्युतैर्य
 भंदोत्सिक्तो बाणो बाहुसहस्रवान् । अचितयन् देवगणान् युद्ध-
 माकांतते सदा ॥ २१ ॥ ध्वजं चास्य ददौ प्रीतः कुमारो ह्यग्नि-
 तेजसम् । चाहनं चैव बाणस्य गयूरं दीप्ततेजसम् ॥ २२ ॥ न

नीलकण्ठने परम मसन्न हो असुरके पास जा उससे कहा, कि-
 तेरा कन्याण हो, तेरे मनमें जो बात हो उसका वर माँग ले १५
 तब बाणासुरसे देवदेव महेश्वरसे यह वचन कहा, कि-हे त्रिलो-
 चन । मैं आपके वरसे देवी (उषा) का पुत्र बनना चाहता हूँ १६
 तब शंकरने तथास्तु कहकर रुद्राणीसे यह बात कही, कि-तुम
 इसको कार्तिकेयसे छोटा पुत्र मान कर ग्रहण करो १७ अग्नि
 से उत्पन्न हुए महासेन जिस रुधिरपुरमें उत्पन्न हुए थे, तिस
 स्थानपर इसका नगर होगा १८ और उस नगरका नाम शोणित-
 पुर होजायगा, मैं उसकी रक्षा किया करूँगा तब कोई भी उस
 शोभामय नगरको न दबा सकेगा ॥ १९ ॥ तदनन्तर बाणासुर
 शोणितपुर नगरमें रहने लगा और सब देवताओंको त्रास देता
 हुआ राज्य करने लगा ॥ २० ॥ मदसे ब्रका हुआ सहस्र भुजाओं
 वाला बाणासुर राज्य पर आकर देवताओंकी ओर ध्यान देकर
 उनसे युद्ध करना चाहने लगा ॥ २१ ॥ स्वामि कार्तिकेयने मसन्न
 होकर बाणासुरको अचितक्री सभान तेजस्वी ध्वजा दी और प्रदीप्त

देवा न च गन्धर्वा न यक्षा नापि पन्नगाः । तस्य युद्धे व्यतिष्ठन्त
 देवदेवस्य तेजसा ॥२३॥ इषम्वकेनाभिहोमश्च दर्पोत्सिक्तो महा-
 सुरः । भूयो गृण्यते युद्धं शूलिनं सोभ्यगच्छन्त ॥२४॥ स रुद्र-
 मभिगम्याथ प्रणिपत्याभिवाद्य च । बलिपुत्ररिद्धं वाक्यं पप्रच्छ
 वृषभध्वजम् ॥ २५ ॥ असकृन्निर्जिता देवाः ससाम्याः समर-
 द्रणाः । गया मदबलोत्सेकात् ससैन्येन तवाश्रयात् ॥२६॥ इमं
 देशं समागम्य वसन्ति सगपुरे सुखम् । ते पराजयसन्त्रस्ता निराशा
 मत्पराजये ॥ २७ ॥ नाकपृष्ठपुपागम्य निवसन्ति यथा सुखम् ।
 सोऽहं निराशो युद्धस्य जीवितं नाद्य कामये ॥ २८ ॥ अयुध्यते
 वृथा ह्येषा बाहूनां धारणं मम । तद् ब्रूहि मम युद्धस्य कश्चिदागमन-
 भवेत् ॥ २९ ॥ न मे युद्धं विना देव रतिरस्ति प्रसीद मे । ततः

तेज बाला मयूर नामक बाहन भी दिया २२ देवदेव शङ्करके तेजके
 धारण उसके सामने युद्धमें देवता गन्धर्व वक्र और पन्नग भी
 नहीं खड़े होते थे ॥ २३ ॥ फिर शिवजीसे रक्षित, दर्पसे छुका
 हुआ वह महासुर युद्ध करनेका अवसर दृढ़ता हुआ शिवजीके
 पास गया २४ बलिके पुत्रने रुद्रके पास जाकर उनको (पृथ्वीमें)
 लेट कर प्रणाम किया, फिर बलिपुत्र बाणासुरने वृषध्वजसे यह
 बात कही, कि-॥ २५ ॥ आपके आश्रयके कारण गर्व बढ जाने
 पर मैंने सेनाका साथमें लेकर देवता साथ और गरुड-गणोंको
 अनेक बार जीता है ॥२६॥ वे पराजयसे सन्त्रस्त होकर और
 अपने जीतनेसे निराश होकर हमारे नगरमें आकर सुखपूर्वक
 रहते हैं ॥ २७ ॥ और मुझसे हार जाने पर अभयबचन मिलने
 पर) स्वर्गमें भी सुखपूर्वक रहते हैं, इस लिए मैं युद्धसे निराश
 होजानेके कारण जीवित रहना नहीं चाहता ॥ २८ ॥ विना युद्ध
 करे इन सुजाओंका धारण करना वृथा है, इसलिये बताइये ।
 क्या मुझे अब कभी युद्ध करनेको मिलेगा ? ॥ २९ ॥ हे देव ।

महस्य भगवानब्रवीद् वृषभध्वजः ॥ ३० ॥ यविता वाणयुद्धं वि-
यया तच्छृणु दानव । ध्वजस्यास्य यदा भङ्गस्तव तात भवि-
ष्यति । स्वस्थाने स्थापितस्याथ तदा युद्धं भविष्यति ॥ ३१ ॥
इत्येवमुक्तः महसन् वाणस्तु बहुशो मुदा । प्रसन्नवदनो भूत्वा
पादयोः पतितोऽब्रवीत् । दिष्ट्या बाहुसहस्रस्य न तथा धारणं
मम ॥ ३२ ॥ दिष्ट्या सहस्राक्षमहं विजेता भुनराहवे । आन-
न्देनाश्रुपूर्णाभ्यां नेत्राभ्यामरिमर्दनः । पञ्चाजलिशितैर्देवं पूज-
यन् पतितो भुनि ॥ ३३ ॥ ईश्वर सवान । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ बाहूना-
गात्मनः स्वकुलस्पतु । सदृशं मास्पसे वीर युद्धमपतिमं महत् ३४
वैशम्पायन उवाच । एवमुक्तस्ततो वाणेश्चपम्बकेण महात्मना ।
हर्षेणात्युच्छ्रितः शीघ्रं ननाम वृषभध्वजम् ॥ ३५ ॥ शितिकण्ठ-

युद्धके बिना मेरा चित्त प्रसन्न नहीं रहना है ! तब भगवान् वृषभ-
ध्वजने हँसकर कहा, कि-॥३०॥ हे वाणासुर ! युद्ध जिसप्रकार
होगा, उसको तू सुन, हे तात ! तेरे स्थानमें खड़ी हुई ध्वजा जब
टूट जावेगी तब युद्ध होगा ॥३१॥ इस प्रकार कहने पर वाणा-
सुर परम हर्षमें भर कर हँसने लगा और मुखको प्रसन्न कर
शिवजीके चरणोंमें गिर कर कहने लगा, कि-मेरा सहस्र भुजाओं
को धारण करना व्यर्थ न जावेगा, यह अहो भाग्यकी बात है ?
और मैं सहस्राक्ष इन्द्रो युद्धमें फिर भीतूँगा यह भी अहो भाग्य
है, फिर जिसके नेत्रोंमें आसूँ भर रहे थे ऐसा अरिमर्दन वाणा-
सुर पाँच सौ अजलियोंसे अर्थात् सहस्र हाथोंको जोड़ शिवकी
पूजाकर पृथ्वीमें लेट शिवको प्रणाम करने लगा ॥३२॥ ३३॥ ईश्वरने
कहा; कि-उठ ! उठ ! हे वीर ! तुम्हें अपनी भुजाओंके और
अपने कुलके अनुरूप अद्भुत युद्ध करनेको मिलेगा ३४ वैशम्पा-
यनजीने कहा, कि-महात्मा चपम्बकके इसप्रकार कहने पर वाणा-
सुरने बड़े भारी हर्षसे अति ऊँचा उड़ल कर वृषभध्वजको प्रणाम

विस्मृष्टस्तु वाणः परपुरञ्जयः । वयौ स्वभवनं तत्र यत्र ध्वजगृहं
 महत् ॥ ३६ ॥ तत्रोपविष्टः महसन्कुम्भाण्डमिदमब्रवीत् । प्रिय-
 मावेदयिष्यामि भवतो यन्मनोगतम् ॥ ३७ ॥ इत्येवमुक्तः मह-
 सन्वाणमपतिमं रणे । प्रोवाच राजन् किं त्वेतद्ब्रूकुकामोसि गत्-
 प्रियम् ॥ ३८ ॥ विस्मयोत्फुल्लनयनः प्रहर्षादिव भापसे ।
 त्वत्तः श्रोतुमिहेच्छामि वरं किं लब्धवानसि ॥३९॥ शितिकण्ठ-
 प्रसादेन स्कन्दगोपायनेन च । कच्चित्रैत्र्योक्वराज्यं ते न्यादिष्टं
 शूलपाणिना ॥४०॥ अस्य चक्रभयनस्त्रा निवसन्ति जलाशये ।
 कच्चिच्छार्ङ्गगदापाणोः स्थितस्य परमाहवे ॥४१॥ कच्चिदिन्द्रस्तव
 भयात्पातालमुपयास्यति । कच्चिद्विष्णुपरित्रासं विमोचयन्ति दितेः
 सुताः ॥४२॥ पातालवासमुत्सृज्य कच्चित्तव वलाश्रयात् । विद्युधा-

किया ३५ नीलकण्ठ महादेवके विदा करने पर शत्रुओंके नगरोंको
 जीतने वालो वाणासुर अपने घरको चला गया और बड़े भारी
 ध्वजागारमें पहुँचा ३६ तहाँ पर बैठ कर उसने कुम्भाण्डसे कहा,
 कि- मैं तुम्हारे मनकी प्रिय बात कहता हूँ ॥३७॥ इस प्रकार
 कहने पर मन्त्रीने हँस कर अपतिम वाणसे कहा, कि- हे राजन् !
 आप मुझे प्रिय लगने वाली कौनसी बात कहना चाहते हैं ३८
 आप अपने नेत्रोंको हर्षसे मफुल्लित कर भापण कर रहे है अतः
 मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, कि- नीलकण्ठके वरसे और स्कन्द
 की रक्षासे आपने क्या वर पाया है ? क्या शूलपाणिने आपको
 त्रिलोकीका राज्य दे दिया है ॥३९॥४०॥ विष्णुके भयसे त्रस्त
 होकर दानव जलाशय (समुद्र) में रहते है, क्या युद्धमें खड़े हुए
 शार्ङ्ग और गदाको हाथमें धारण करनेवाले विष्णुके ऊपर (विजय
 पानेका आपको वरदान मिल गया है) ॥ ४१ ॥ क्या आपके
 भयसे इन्द्र पातालको भाग जावेगा और क्या दितिके पुत्र विष्णु
 के त्राससे छूट जावेंगे ॥४२॥ क्या आपके बलाका आश्रय पाने

वासनिरता भविष्यन्ति महासुराः ॥ ४३ ॥ बलिर्विष्णुपराक्रांतिं
 बद्धस्तत्र पिता वृष । सखिलीघाद्विनिष्क्रम्य कच्चिद्राज्यमवाप्स्यति
 दिव्यमान्याम्बरधरं दिव्यस्रग्गन्धलेपनम् । कच्चिद्वैरोचनिं तात
 द्रक्ष्यामः पितरं तत्र ॥४४॥ कच्चित्रिभिः क्रमैः पूर्वं हतान्त्वलोकानि
 मान्मभो । पुनः प्रत्यानयिष्यामो जित्वा सर्वान् दिवोकसः ४५
 स्निग्धगम्भीरनिर्घोषं शङ्खस्वनपुरोजवम् । कच्चिनारायणं देवं
 जेष्यामः सपितिञ्जयम् ॥ ४७ ॥ कच्चिद् वृषभञ्जस्तात प्रसाद-
 सुमुखस्तत्र । यथा ते हृदयोत्क्रम्यः साश्रुबिन्दुः प्रवर्तते ॥ ४८ ॥
 कच्चिदीश्वरतोरेण कार्तिकेयमतेन च । प्राप्तवानसि सर्वेषाम-
 स्पाकं राज्यसम्पदम् ॥ ४९ ॥ इति कुम्भाण्डवचनैश्वोदितः सु-
 सुरोत्तमः । बाणो बाणीगसंसर्का मोवाच वदतां वरः ॥५०॥

से दैत्य पातालमें बसना छोड़ कर देवताओंके आवासस्थल स्वर्ग
 में बस जावेंगे ? ॥ ४३ ॥ तुम्हारे पिता बलियो विष्णुने जीत
 लिया था, क्या वह जलमेंसे निकल कर राज्य पा जावेंगे ४४
 हे तात ! क्या हम दिव्य चन्दन और वस्त्रधारी और दिव्य गंध
 का लेपन करने वाले विरोचनपुत्र आपके पिताको देखेंगे ? ४५
 हे मभो ! क्या हम तीन चरणोंको धर कर छीने हुए तीनों लोकों
 को सब देवताओंको जीत कर फिर लौटा सकेंगे ॥ ४६ ॥ क्या
 हम स्निग्ध और गम्भीर घोष वाले शंखके शब्दकी समान सामने
 वेग वाले सपितिञ्जय नारायण देवको जीत सकेंगे ॥ ४७ ॥
 हे तात ! क्या वृषभञ्जने आपको वरदान देनेके लिये अच्छा सुख
 कर लिया था, क्योंकि-जिस प्रकार आपका हृदय काँप रहा है
 और आँसुओंकी बूँदें आरही हैं (उससे तो यह ही प्रतीत है) ४८
 क्या शिवके प्रसादसे कार्तिकेयकी सम्पत्तिके अनुसार हे राजर्षि !
 आपको हम सबोंकी राज्यसम्पत्ति मिल गई है । ४९। कुम्भाण्ड
 के वचनसे इस प्रकार प्रेरित हुए असुरसत्तम ब्रह्माध्यामें श्रेष्ठ

(६६६) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [षोडशाधिकशततम

वाण उवाच । चिरात्प्रभृति कुम्भाण्ड न युद्धं प्राप्यते मया । ततो
मया मुदा पृष्टः शितिकण्ठः गतापवान् ॥ ५१ ॥ युद्धाभिलाषः
सुमहान् देव सञ्जायते गम । अभिप्राप्याम्यहं युद्धं मनसस्तुष्टि-
वर्धनम् ॥ ५२ ॥ ततोहं देवदेवेन हरेणागिन्प्रघातिना । महस्य सु-
चिरं कालमुक्तोऽस्मि वचनं प्रियम् । प्राप्स्यसे सुमहद्युद्धं त्वं वाणा-
प्रतिमं महत् ॥ ५३ ॥ मयूरध्वजभङ्गस्ते भविष्यति यदासुर । तदा
त्वं गाप्स्यसे युद्धं सुमहद्विनिन्दन ॥ ५४ ॥ ततोहं परमभीतो
भगवन्तं वृष-वजम् । गच्छाम्य शिरसा देवं तवाऽन्तिकमुपागतः ।
इत्येवमुक्तः कुम्भाण्डः गोवाच नृपतिं तदा । अहो न शोभनं
राजन् यदेवं भापसे वचः ॥ ५६ ॥ एवं कथयतोस्तत्र तयोरन्यो-
न्यमुच्छ्रितः । ध्वजः पपात वेगेन शकाशनिसमाहृतः ॥ ५७ ॥

वाणासुरने अस्खलित वाणीका उच्चारण किया । ५० । वाणा-
सुरने कहा कि-हे कुम्भाण्ड ! मुझे बहुत समयसे युद्ध करनेको
नहीं मिलता इस लिये मैंने प्रतापी शिवसे मुझे अब कब युद्ध
करनेको मिलेगा, यह बात वृष्णी थी ॥ ५१ ॥ मैंने कहा था,
कि हे देव ! मुझे युद्ध करनेकी बड़ी भारी इच्छा हो रही है,
अतः मुझे मेरे मनकी तृष्टिये बढ़ाने वाला युद्ध कब करनेको
मिलेगा ॥ ५२ ॥ तब बहुत समयके बाद शत्रुओंका नाश करने
वाले देवदेव हरने हँसकर कहा, कि-हे वाण ! तुझे बड़ा भारी
अप्रतिम युद्ध करनेको मिलेगा । ५३ । हे दितिनन्दन ! हे असुर !
जब तेरी मयूरध्वजा टूट जावेगी, तब तुझे बड़ा भारी युद्ध करना
पड़ेगा । ५४ । तदनन्तर मैं परम गसन्न हो भगवान् वृषभध्वजको
शिरसे गणाम कर तेरे पास चला आ रहा हूँ ॥ ५५ ॥ इसप्रकार
फहने पर कुम्भाण्डने राजासे कहा; कि-हे राजन् ! तुमने ऐसी
बात यह कर अच्छा नहीं किया । ५६ । जब वे दोनों परस्पर
इसप्रकार बातचीत कर रहे थे इतनेमें ही उसकी ध्वजा इन्द्र के

तं तथा पतितं दृष्ट्वा सोमसुरो ध्वजमुत्तमम् । महर्षमतुलं लेभे मेने
 चाहवमागतम् ॥ ५८ ॥ ततश्चकम्पे वसुधा शक्राशनिसमाहता ।
 ननादान्तर्हितो भूमौ वृषदंशो जगर्ज च ॥ ५९ ॥ देवानामपि यो
 देवः सोप्यवर्षत वासवः । शोणितं शोणितपुरे सर्वतः परमं ततः
 सूर्यं भित्त्वा महोल्का च पपात धरणीतले । स्वपक्षे चोदितः सूर्यो
 भरणीं समपीडयत् ॥ ६१ ॥ चैत्यवृक्षेषु सहसा धाराः शतसह-
 स्रशः । शोणितस्यास्रवन्त्रोरानिपेतुस्तारका भृशम् ॥ ६२ ॥
 राहुग्रसदादित्यमपर्वणि विशाम्पते । लोक्तयकरे काले निर्घात-
 आगतन्गहान् ॥ ६३ ॥ दक्षिणां दिशामोस्थाय धूमकेतुः स्थितो-
 भवत् । अग्निशं चाप्यविच्छिन्ना ववुर्वाताः सुदारुणाः ॥ ६४ ॥

वज्रसे टूट कर पृथिवी पर आघाती ५७ उस उक्त प ध्वजाकी पड़ी
 हुई देखकर असुरश्रेष्ठने बड़ा आनन्द पाया और युद्धको आर्या
 हुआ समझा ॥ ५८ ॥ उस समय इन्द्रके वज्रसे आहत हुई पृथिवी
 काँपने लगी और भङ्गाने लगी और विलास शब्द करने लगे ५९
 और देवताओंके देव इन्द्रभी शोणितपुरमें चारों ओर रक्तकी वर्षा
 करनेलगे ६० सूर्यमण्डलको भेद कर बड़ीभारी बल्का पृथिवीमें
 गिरपड़ी और अपने पक्षमें उदय हुआ सूर्य भरणी नक्षत्रको पीड़ित
 करनेलगा (अर्थात्-देवनक्षत्रमें उदय हुआ सूर्य कृत्तिकामें पुसगया
 अतः रोहिणी जो बाणासुरको जन्मनेक्षत्र था वह और जो द्विती-
 सरीं उसके अभिषेकका भरणी नक्षत्र था ये दोनों नक्षत्र विभगण
 अतः उसको देहकी पीड़ा होगी और वह पदसे भ्रष्ट होगायगा,
 गण, इस बातकी सूचना हो गई) ॥ ६१ ॥ चैत्यके वृक्षोंमेंसे अक-
 स्मात् रक्तकी सहस्रों भयंकर धाराएँ टपकने लगी और तारे अधि-
 कतर टूटने लगे ६२ हे राजन् ! पर्वके बिनाही राहुने सूर्यको ग्रस
 लिया और लोकाका क्षय करने वाले समयमें बड़ा भारी निर्घात
 गिर पड़ा ॥ ६३ ॥ दक्षिण दिशाकी ओर पुच्छल तारा उदय

(६६८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [पौडशाधिकशततम

श्वेतलोहितपर्यन्तः कृष्णग्रीवस्तद्विद्वद्युतिः । त्रिवर्णपरिधो भानुः
सन्ध्यारागमथावृणोत् ॥६५॥ वक्रमद्गारकश्चके कृत्तिकासु भयं-
करः । वाणस्य जन्मनक्षत्रं भर्त्सयन्निव सर्वशः ॥६६॥ अनेक-
शाखश्चैत्यश्च निपपात महीतले । अर्चितः सर्वकन्याभिर्दान-
वानां महात्मनाम् ॥६७॥ एवं विविधरूपाणि निमित्तानि निशा-
मगन् । वाणो बलमदोन्मत्तो निश्चयं नाधिगच्छति ॥६८॥ विचे-
तास्त्वभवत् पाद्मः कुम्भाण्डस्तत्त्वदर्शिवान् । वाणस्य सचिवस्तत्र
कीर्तयन् बहुकिञ्चिपम् ॥ ६९ ॥ उत्पाता ह्यत्र दृश्यन्ते कथयन्ते
न शोभन्म् । तत्र राज्यविनाशाय भविष्यन्ति न संशयः । ७० ।
वयं चान्ये च सचिवा भृत्या ये च तवानुपाः । क्षयं यास्यन्ति न
चिरात् सर्वे पार्थिवदुर्नपात् ॥७१॥ यथा शक्रश्च जतरो स्वदर्पात्-

होगया और भयंकर वायु अनवच्छिन्न रूपसे चलने लगे । ६४।
त्रिगलीकी सपान कान्ति वाले कात्ती ग्रीवावाले, श्वेत और रक्त
अन्न वाले तीन वर्ण के परिवेषने संध्याकी समान वर्ण वाले भानु
को घेर लिया ६५ मद्गल कृत्तिका पर (वाणामुरके जन्मनक्षत्र
पर) वकी होगया, इस प्रकार उसने वाणामुरके जन्मनक्षत्रको भली
प्रकार पीड़ितकिया ६६ महात्मा दानोंकी सम्पूर्ण कन्याओंसे
शुजित अनेक शाखाओं वाला चैत्य वृक्ष भूमिमें गिरा ड़ा ॥६७॥
इस प्रकार अनेक प्रकारके निमित्तोंको देख कर बल और मदसे
उन्मत्त वाणामुर कुछ निश्चय न कर सका । ६८। उस समय तत्त्व
ज्ञानोंको देखनेवाला बुद्धिमान जो वाणामुरका मन्त्री था, यह
अनेक प्रकारके उत्पातोंको कहना हुआ ये शीघ्र होगया ॥६९॥
(यह कहने लगा, कि-) यह जो उत्पात दोल रहे हैं, ये शोभन वात
को नहीं बनाते, ये मरनेरे राज्यको नष्ट करनेके लिए ही हो रहे हैं
हम और आपके वशमें रहनेवाले दूसरे मंत्री और आपके अनु-
चर रागाकी दुर्नीतिसे शीघ्रही नष्ट होजायेंगे ७१ गिन प्रकार

पतनं भवेत् । बलमाकर्तते मोहात्तथा वाणस्य नर्दतः ॥ ७२ ॥
 देवदेवप्रसादात्तु त्रिलोक्यविजयं गतः । उत्सेकाद् दृश्यते नाशो
 युद्धाकर्तृ ननर्द ह ॥ ७३ ॥ वाणः प्रीतमनास्त्वेवं पपी पान-
 मनुत्तमम् । दैत्यदानवनारीभिः सार्द्धमुत्तमविक्रमः ॥ ७४ ॥ कु-
 म्भाण्डश्चिन्तयानिष्टो राजवेशमाभ्ययात्तदा । अनिन्तमञ्च तस्वार्थं
 तैस्त्वरूपातदर्शनैः ॥ ७५ ॥ राजा प्रमादी दुर्भुद्धिर्जितकाशी महा-
 सुरः । युद्धमेवाभिलषते न दोषान् मन्वते मदात् ॥ ७६ ॥ महो-
 त्पानभयं चैव न तन्मिथ्या भविष्यति । ज्यपीदानीं भवेन्मिथ्या
 सर्वमुत्पातदर्शम् । ७७ ॥ इह स्नास्ते त्रिनयनः कार्तिकेशश्च वीर्य-
 वान् । तेनेत्पन्नेऽपि दोषो न कश्चिद्दृच्छेत् पराभवम् ॥ ७८ ॥
 उत्पन्नदोषमभवः क्षयोऽयं भविता महान् । दोषाणां न भवेन्नाश

हन्द्रध्वजा वृत्तसे गिर पड़ी है; इसीप्रकार बली पुरुषको चाह
 कर मोहवश गर्जने हुए बाणासुरका गर्वके कारण पतन होजा-
 गया ७२ देवदेवके प्रसादसे आपने त्रिलोकीको जीत लिया है,
 परन्तु अति दर्पके कारण आपका नाश ही होगा, तब युद्धको
 चाहने वाला बाणासुर गर्जने लगा ७३ फिर श्रेष्ठ पराक्रम वाला
 बाणासुर प्रसन्न होकर प्रसन्न मनसे दैत्य और दानवनारियों
 के साथ उत्तम शरवत पीने लगा ७४ तब कुम्भाण्ड भी चिन्ता
 में भर कर राजभवनसे चला गया और उत्पातोंको देख कर
 तस्वभावका विचार करने लगा ॥ ७५ ॥ यह राजा बाणासुर
 प्रमादी है, जीतकर खिल रहा है मड़ाभारी राजस है, इस
 लिये युद्धको ही चाहता है, मदके कारण दोषको नहीं देखता ७६
 यह सब महान् उत्पातोंका भय मिथ्या नहीं होगा, परन्तु अभी
 यह सब उत्पातदर्शन मिथ्या भी हो सकते हैं ७७ क्योंकि-यहाँ
 पर त्रिनयन शिव और वीर्यवान् कार्तिकेश रहते हैं, इस लिए
 अशुभ चिन्ह होने पर भी किसीका पराभव नहीं होसकता ७८

इति मे प्रीयते मतिः ॥ ७६ ॥ नियतं दोष एनायं भविष्यति न
 संशयः । दौरात्म्यान्वृषतेरस्य दोषभूना हि दानवाः ॥ ८० ॥
 देवदानवसंगानां गः कर्ता भुवनपथुः । भगवान् कार्तिकेयश्च कृत-
 वोज्लोहिते पुरे ॥ ८१ ॥ माणैः प्रियतरो नित्यं भविष्यति गुहः
 सदा । तद्विशिष्टश्च बाणोऽपि शिवस्य सनतं प्रियः ॥ ८२ ॥
 दूर्पोक्तेस्तेषां च नाशाय वरं याचितवान् भवम् । युद्धहेतोः स
 सुख्यस्तु सर्वथा न भविष्यति ॥ ८३ ॥ यदि विष्णुपुरोगानामिन्द्रा-
 दीनां द्विवीकसाम् । भवित्री ह्यभवत् प्राप्तिर्भवहस्ता कृतं भवेत् ८४
 प्तमोश्च हि को युद्धं कृणारभवयोरिह । शको दातुं समागम्य
 बाणसाहाय्यकान्तिगोः ॥ ८५ ॥ न च देववचो मिथ्या भविष्यति
 कदाचन । भविष्यति महद्युद्धं सर्वदैत्यविनाशनम् ॥ ८६ ॥ स

इन चिन्होंमें पतीत होता है, कि-बड़ा भारी जंग होगा, क्यों
 कि-दुश्चिन्होंका नाश नहीं होसकता, यह मेरा चिन्मर है ७६
 यह तो अवश्य ही दोष होजायगा, क्यों कि-राजा बाणासुरकी
 दुरात्मतासे सब दानव दोषीभूत (पापी) होगए है ८० जो
 भुवनोंके स्वामी देव दानवोंके रचनेत्र ले है उन्होंने और भगवान्
 कार्तिकेयने इसको लोहितपुरमें बसा दिया था ॥ ८१ ॥ स्वामी
 कार्तिकेय शिवको माणोंसे भी अधिक प्यारे हैं और बाणासुर
 शिवको कार्तिकेयसे भी अधिक प्रिय है. ८२ इसने दुर्षके कारण
 महेश्वरमें युद्धके लिए वर माँगा था, परन्तु अब महः (युद्धका)
 लोभी सर्वथा नष्ट होजायेगा ८३ क्या यहाँ पर महादेवकी
 हाथसे विष्णु आदि स्वर्गवासी देवता यहाँ भ्राजावेंगे ८४ परंतु
 बाणकी सहायता नाहने वाले कुणार और शिवसे कौन पुरुष
 युद्ध कर सकगा है ? ८५ परन्तु भगवान् शंकरका वचन कभी
 भी झूठा नहीं होगा, अतः सब दैत्योंको नष्ट करने वाला बड़ा
 भारी युद्ध अनरग होगा ८६ तत्त्वदर्शी कुम्भाण्ड भूय प्रकार

एवं चिन्तयाविष्टः कुम्भायडस्तत्त्वदर्शिवान् । स्वस्तिप्रणिहितं
 पुद्धि षकार स महासुरः ॥ ८७ ॥ ये हि देवैर्भिरुच्यन्ते पुण्य
 कर्मभिराहवे । यथा बलिर्नियमितस्तथा ते यान्ति संतपसम् ॥ ८८ ॥
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवांशे विष्णुपर्वणि वाणयुद्धे
 पौडशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥

वैशम्पायन उवाच । क्रीडाविहारोपगतः यदाचिदभवद्भवः ।
 देव्या सह नदीतीरे रम्ये श्रीपति स गभुः । १ ॥ शतगनि वजा-
 प्सरसां चिक्रीडुथ समन्ततः । सर्वर्तुकवने रम्ये गन्धर्वपतयस्तथा र
 कुमुदैः पारिजातस्य पुष्पैः सन्तानकस्य च । बन्धोदागमिवाकाशं
 नदीतीरं तु सर्वशः ॥ ३ ॥ वेणुवीणामृदङ्गैश्च पवणवैश्च सह-
 स्रशः । बाद्यमानैः स शुभ्राव गीतमप्सरसां तदा ॥ ४ ॥ सूत-
 मागधकर्णपैश्च स्तुचन्नप्सरसां गणाः । देवदेवं सुवपुषं स्रग्विणं
 रक्तवाससम् ॥ ५ ॥ श्रीमहेशं देवदेवमर्चयन्ति मनोरमम् । ततस्तु

चिन्तातुर होकर कल्याणपय विचार करने लगा ८७ कि-जो
 पुण्यकर्म करने वाले देवताओंसे युद्ध कर विरोध करते हैं, वे
 जिस प्रकार बलि वैश मया था, तिसी प्रकार नष्ट होजाते हैं ८८
 एकसी सोलहवाँ अध्याय समाप्त ॥ ११६ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि एक समय भगवान् शंकर नदीके
 रमणीय तट पर जगद्देवीके साथ क्रीडा विहारमें रत हो रहे थे १
 तहाँ सर्वर्तुक नाममें सैंकड़ों अप्सरायें और गन्धर्वमणि क्रीडा कर
 रहे थे ॥ २ ॥ पारिजातके पुष्पोंकी और सन्तानके पुष्पोंकी गन्धि
 से नदीका तट सुगन्ध भरे हुए आकाशकी समान होगया ३
 भगवान् सहस्रों वेणु वीणा मृदंग पणवके वज्रके साथ अप्सराओं
 के गीतको सुनने लगे ॥ ४ ॥ अप्सराओंके टोले सूत और मागधोंके
 (साथ गीत गाकर) मालाधारी रक्त वस्त्र वाले सुन्दर शरीर वाले
 महादेवकी स्तुति करने लगे ॥ ५ ॥ और देवदेव श्रीमहेशकी

(६७२) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [सप्तदशाधिकशततम

देव्या रूपेण चित्रलेखा वराप्सराः ॥ ६ ॥ भवं प्रसादयामास
देवी च ग्राहसत्तदा । प्रसादयन्तीपीशानं प्रहसन्त्यप्सरोगणाः ॥
भारस्य पार्षदा दिव्या नानारूपा महौजसः । देव्या ह्यनुक्त्वा सने
क्रीडन्ते तत्र तत्र ह ॥ ८ ॥ अथ ते पार्षदास्तत्र रहस्ये स्रुविपश्चितः
महादेवस्य रूपेण तन्निवहं रूपमास्थिताः ॥ ९ ॥ ततो देव्या सुरू-
पेण लीलाया वदनेन च । देवी प्रहासं सुमुचे ताश्चैवाप्सरसस्तदा ।
ततः किलकिलाशब्दः प्रादुर्भूतः । सगन्ततः ॥ १० ॥ महर्षपतुलं
लेभे भवः प्रीतमनास्तदा । वाणस्य दुहिना कन्या तत्रोपा नाम
भागिनी ॥ ११ ॥ देवं संक्रीडितं दृष्ट्वा देव्या सह नदीगतम् ।
दीप्यमानं महादेवं द्वादशादित्यतेजसम् ॥ १२ ॥ नानारूपं वपुः
कृत्वा देव्या विपत्तिकीर्षया । उपा मनोरथं चक्रे । पार्वत्याः स-
अर्चना करने लगी, तदनन्तर श्रेष्ठ अप्सरा चित्रलेखा उपाना रूप
धारणकर शिवजीके प्रसन्न करने लगी, उस समय पार्वती भी
हँसने लगी जब वह ईशके प्रसन्न करनेलगी तब अप्सरारों हँसने
लगी ॥ ६ ॥ ७ ॥ देवीकी अज्ञासे अनेक प्रकारके दिव्य रूपोंके
धारण करनेवाले महातेजस्वी शिवके दिव्य पार्षद महादेवका रूप
धारण कर जहाँ तहाँ क्रीड़ा करने लगे ८ तदनन्तर वे चिद्वान्
पार्षद महादेवनिह (वृषभ आदि) से युक्त हो कर एकान्त
में क्रीड़ा करने लगे ९ तदनन्तर देवीके सुरूप, लीला और गुणके
देखकर उपादेवी और अप्सरारों हँसनेलगी, तबतो चारों ओर
किलकिल शब्द होने लगा १० उस समय शिवने अपने मनमें
प्रसन्न होकर अतुल आनन्द पाया, तहाँ पर वाणासुरकी पुत्री
उपा नाम वाली भागिनी (स्त्री) भी भी ११ उसने नदीके तट
पर वास्य आदिगोंकी समान तेज वाले दीप्यमान महादेवके
अनेक प्रकारके रूप धारण करके देवीका विप करनेकी इच्छामें
देवीके साथ क्रीड़ा करते हुए देखा उपा ने पार्वतीके समीप

निनी तथा ॥ १३ ॥ धन्या हि भर्तृसहिता रमणेवं मम गता ।
 मनसा त्वथ संकल्पमुपवा भाषितं तथा ॥ १४ ॥ विज्ञाय तपधि-
 प्रायमुपायाः पर्वतात्मजा । प्राड देवी वनो वाक्पमुपां इपेगनी
 शनैः ॥ १५ ॥ उपे त्वं शीघ्रपप्येवं भर्ता सह रमिष्यसि । यथा
 देवी मया सार्धं शंकरः शत्रुनाशनः ॥ १६ ॥ एवमुक्ते ततो देव्या
 वाक्ये निन्ताविलेजणा । उपा भाव तदा चक्रे भर्ता रंस्ये कदा
 सह ॥ १७ ॥ तदा हैमवती वाक्प संपहस्पेदमव्रवीन् । उपे शृणुष्व
 वाक्पं मे यदा संयोगमेष्यसि ॥ १८ ॥ औशाखे मासि हर्म्यस्थां
 द्वादश्यां सां दिनज्ञये । रमिष्यति यः स्वप्ने स ते भर्ता भवि-
 ष्यति ॥ १९ ॥ एवमुक्ता देवसुता कन्यागणसमाहृता । अपा-

(पतिके पानेका) मनोरथ क्रिया १३ और वह अपनी सखीके
 समीप) कहने लगी कि-उमा देवी धन्य हैं जो अपने स्वामी के
 साथ इस प्रकार रमण करती हैं जब पर्वतपुत्री पार्वतीने ऊपा
 के मनके संकल्पको जानकर और उसके भाषणको जान कर
 ऊपाको धीरे-धीरे रमिष्यकरके यह कथन कहा कि-१४-१५ हे ऊपे !
 जिस प्रकार मेरे साथ शत्रुओंका नाश करने वाले भगवान्
 शंकर रमण करते हैं इसी प्रकार शीघ्र ही तू अपने भर्ताके साथ
 रमण करेगी ॥ १६ ॥ देवीके इस प्रकार कहने पर चिन्ताके
 कारण गदगदले नेत्रवाली ऊपा यह विचार करने लगी कि-मेरे अपने
 स्वामीके साथ कब रमण करूँगी ॥ १७ ॥ उस समय हिमवान्
 की पुत्रीने उससे हँस कर यह बात कही कि-हे ऊपे ! जब तेरा
 संयोग होगा, तू मेरे उस (जतानेवाले) वाक्यको सुन ॥ १८ ॥
 औशाखके महीनेमें द्वादशीके दिन जब तू अपने मकानमें स्थित
 होगी उस समय जबमें जो तेरे साथ रमण करेगा वह तेरा पति
 होगा ॥ १९ ॥ इस प्रकार कहने पर कन्याओंसे घिरी हुई
 दैत्यपुत्री हर्ममें भर कर कूदने लगी और सुखपूर्वक आनन्द

क्रामत हर्षेण रममाण्णा यथासुखम् ॥ २० ॥ ततः सखीभिर्हा
स्यन्ती हर्षेणोत्फुल्लनोचना । तालिकासन्निपातैश्च हृद्योन्य-
मभ्यवर्तत ॥ २१ ॥ किन्नर्यो यत्तकन्यारश्च नानादैतेयकन्यकाः ।
अप्सरोगणकन्यारश्च उषायाः सखिनां गताः ॥ २२ ॥ उक्ता च
तत्र तागिश्च भर्ता तत्र वरानने । भविष्यत्पश्चिरेणैव देव्या वचन-
कल्पितः ॥ २३ ॥ न हि देव्या वचो मिथ्या भविष्यति कदा-
चन । रूपाभिजनसम्पन्नः पतिस्ते कल्पितस्तथा ॥ २४ ॥ उषा
सखीनां तद्वाक्यं प्रतिपूज्य यथाविधि । यच्चन्मनोरथं देव्या भाष-
यन्ती व्यवस्थिता ॥ २५ ॥ ततः क्रीडाविहारं तमनुभूय सहोमया ।
गतेऽहनि ततः सर्वा नार्यस्ताः परमाद्भुताः ॥ २६ ॥ यथुः स्वाना-
ल्लगान् सर्वा देवी चाद्दर्शनं गता । कारिणदशैस्तथा यानैर्गणै-
रन्यास्तथा रथैः ॥ २७ ॥ पुरं प्रविधियुर्हृष्टाः कारिचदाकाश-

करने लगी २० तदनन्तर वह हर्षसे अिलो हुए नेश घाली ऊपा
सखियोंके साथ हँसने लगी और परस्पर ताली पटका कर कूदने
लगी ॥ २१ ॥ किन्नरियों यज्ञोंकी कन्याएँ और चहुतसे दैत्योंकी
कन्याएँ तथा अप्सराओंकी कन्याएँ भी ऊपाकी सखी बन गईं
भी २२ उन्होंने भी उससे कहा कि हे वरानने ! देवीके वचनके
अनुसार भर्ता तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा ॥ २३ ॥ देवीका वचन कभी
मिथ्या न होगा, उन्होंने रूपवान् और कुलीन पति तुम्हारे लिये
निर्दिष्ट किया है २४ तदनन्तर ऊपा सखियोंके वाक्यका उचित
रीतिसे सत्कार करके सखियोंके, जो तेरा मनोरथ था उसको
देवीने दे दिया, उसका मनमें विचार करती हुई खड़ी होगई ॥ २५ ॥
इस प्रकार उषाके साथ क्रीडाविहारका अनुभव करते करते दिन
बीताने पर वे सब परम अद्भुत नारियों अपने २ घरको जाना
चाहने लगीं, उषा देवी भी अन्वर्धान होगई उस समय कुछ अश्वों
पर रथों पर तथा दूसरी दूसरी सवारियों पर चलतीं ॥ २६ ॥ २७

मास्त्रिषाः । ततः प्रभृति सा देवी कामयोहं गता विभो ॥२८॥
 देव्यास्तु वचनं स्मृत्या संस्मरन्ती पतिं तदा । निर्द्रा न भजते राजौ
 न दिवा भोजनं तथा ॥ २९ ॥ स्मरन्ती पतिभावं स विललाप
 नृपात्मजा । निन्दती शशिनं नाके सेवगी न च चन्दनम् ॥३०॥
 सा बाला मोहिता राजन् कामेन परिपीडिता । उपचर्यति तां
 सख्यो विज्वरागपि सज्वराम् ॥३१॥ तप्यते हृदयं तस्या लेपितं
 चन्दनेन च । कपोले पाण्डिगानिन्दं नेत्रे जलसमन्वते ॥ ३२ ॥
 जूभणं च तथा स्वापो देहे तस्या व्यवर्धत । पद्मिनीकन्दचूर्णानि
 शीतलानि मुहुर्मुहुः ॥३३॥ त्रिान्ति सख्यो हृदये पीडिते पन्मथा-
 वाग्निना । व्यजनानि प्रकुर्वानि पृच्छन्नि च पुनः पुनः ॥३४॥

उस समय बहुतभी स्त्रियों गसन्न होकर नगरमें घुसीं और कुछ
 आकाशमेंको चली गईं हे विभो ! उस दिनसे ऊपा देवी काम
 के मोहमें फँस गई ॥ २८ ॥ देवीके वचनका स्मरण कर अपने
 पतिको स्मरण कर उसे राज्रिमें निन्द्रा नहीं आती थी और वह
 दिनमें भोजनभी नहीं करती थी ॥ २९ ॥ वह राजपुत्री पतिका
 विचार करके विलाप करनेलगी स्वर्गमें-(स्थित) चन्द्रमाकी निन्द्रा
 करने लगी और उसने चन्दनका सेवन करना छोड़दिया ॥३०॥
 हे राजन् ! वह बाला कामसे पीडित होकर मुरझाने लगी, वह
 ज्वररहित थी तब भी उसकी सखियों उसकी ज्वराक्रान्तकीसी
 सेवा करने लगीं ३१ चन्दनका लेप करनेपर भी उसका हृदय
 जलना रहता था, उसके कपोलोंमें पाण्डिगानिन्द होगया अर्थात्
 रक्तकी लाली नाकर सफेदी आने लगी और नेत्र आँसुओंसे भरे
 रहने लगे ३२ उसके शरीरमें जँबाई और (पैर आदिका) सोना
 बढ़ने लगा, उसकी सखियों उसके कामाग्निसे सन्तप्त हृदय पर
 कमलिनिर्गोंके परागके शीतल चूर्णको बार २ डालने लगीं, बार
 बार पंखा करने लगीं और बार २ बूझने लगीं, कि-॥३३॥३४॥

का व्यथा किं शरीर ते किमिदं तव भामिनी । किं तुभ्यं रोचते-
सुभ्रु तदारुणाहि वरानने । ३५ । कस्मादिदं समुत्पन्नं दुःखसाध्यं
मनोरमे । त्वन्मनोजुगतं वाक्यं वदन्त्येतास्तु सारिकाः ॥ ३६ ॥
शुका नीलनमाः सुभ्रु पठन्ति हि पुमानिव । प्रल्हादजननं वाक्यं
किमर्थं नाद्य भागसे ॥ ३७ ॥ तत्र तागो महावीरो देवानामपि
दुर्जयः । तस्माग्रे तिष्ठते कोऽपि न भूमौ वरवर्णिनि ॥ ३८ ॥
बलेः पुत्रो महावीरो वाणो हि दुरतिक्रमः । जित्वागवतीकं च
नगरं शोणिताह्वयम् । यत्र सन्तिष्ठते देवः श्रुलहस्तो महेश्वरः ३९
पुत्रोयमिति नानीहि गिरिजां योऽग्रवीद्धरः । चाणं प्रति महादेव-
स्त्वव तातमुपे शृणु ॥ ४० ॥ का व्यथेति मुखे चेदं नोसाग्रं च

तुम्हें क्या कष्ट है ? तेरा शरीर कैसा होरहा है ? हे भामिनी !
तेरी यह क्या (दशा) है ? हे देवि ! तुम्हें क्या बात अच्छी लगती
है ? हे वरानने ! तू उसका वर्णन कर ३५ हे मनोरमे ! यह कष्ट-
साध्य रोग तुम्हें कैसे होगया ? ये मैंनाएँ तेरे मनके अनुकूल बातें
कर रही हैं ! ३६ हे सुभ्रु ! यह अति नीले वर्ण वाले तोते पुरुष
की समान प्रसन्न करने वाले वचन बोल रहे हैं, तब भी तू क्यों
नहीं बोलती है ३७ हे सुन्दर वर्ण वाली ! तुम्हारे पिता महा-
बलवान हैं, देवता भी उनकी कठिनतासे जीत सकते हैं, उनके
आगे पृथिवीमें (तो) कोई ठहर ही नहीं सकता ३८ (तुम्हारे
पिता) वाणासुर महाबली हैं; दुरतिक्रम हैं, वह अमरावती नगरी
को नीनकर इस शोणितपुर नामक नगरमें रहते हैं, यहाँ पर हाथ
में शूलको धारण करनेवाले महेश्वर देव रहते हैं ३९ हे ऊपे !
सुन ! तुम्हारे पिता वाणासुरके लिये महादेवजीने पार्वतीसे कहा
था, कि-तुम इसे पुनसमझो । ४०। तुम्हें क्या व्यथा है ? जिस
प्रकार शरद ऋतुमें कपल पर मोसकी बूँदें निरानमान होती हैं
इसी प्रकार तुम्हारे मुख पर बूँदें सुशोभित होरही हैं और तुम्हारा

विराजते । नीहारविन्दवः पद्मे राजन्ते शारदागमे ॥ ४१ ॥ संपूर्णचन्द्रपतिमं मुखं चन्द्रो यथा घनेन शोभते तु विच्छायं किमर्थकारणं वद ॥ ४२ ॥ श्वासान्मुञ्चसि बालो त्वं न रतिं याति भावतः । गृहाण भोजनं दिव्यं यत्ते मनसि वर्तते ॥ ४३ ॥ ताम्बूलं रोचते पूर्वं तद्विक्रमर्थं न गृह्यते । मिष्टानि यानि वस्तूनि दुर्लभा नीनरैर्जनैः ॥ ४४ ॥ गृहाण देवि उत्तिष्ठ वद पीडां शरीरजाम् । इति कोलाहलं श्रुत्वा उपावेशमसमुद्भवम् ॥ ४५ ॥ दासीभिः कीर्तितं तत्र मातुरग्रे पृथक् पृथक् । राजपुत्री यदा देवि समायाता गृहे सती ॥ ४६ ॥ जलकटाविहाराच्च मूकेषु परिलक्ष्यते । अतो दासीजना देवि वदामस्तां वयं जनाः ॥ ४७ ॥ को मोहः किमिदं मौनं कः स्वापो म्लानेता कृपम् । विचार्य भिषजो देवि दिश्यतां

नासाग्रभाग (फूल कर) शोभायमान दीख रहा है ॥ ४१ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमा बादलोंमें (दकने परं) कान्तिरहित होनेसे शोभा नहीं पाता इसी प्रकार पूर्ण चन्द्रमा सा तेरा मुख भी कान्तिरहित क्यों दीखता है ? इसका कारण बताओ ॥ ४२ ॥ हे बाले ! पूरे श्वास छोड़ रही है और चित्तसे मसन्न नहीं रहती है, जो तेरे मनमें हो उस दिव्य भोजनको कर ॥ ४३ ॥ पहिले तो तुम्हें ताम्बूल अच्छे लगते थे अब तू उन्हें क्यों नहीं लेती, दूसरे मनुष्योंको दुर्लभ जो मिष्ट वस्तुएँ तुम्हें इष्ट हों ॥ ४४ ॥ हे देवि ! उनको तू ग्रहण कर, उठ ! उठ ! और तेरे शरीरमें जो पीडा हो उसको बता, ऊपाके घरमें इस प्रकारके कोलाहलको सुन कर ॥ ४५ ॥ उसकी मातासे दासियोंने पृथक् २ कहा कि- हे देवि ! जबसे राजपुत्री जलकटाविहार घरसे आई है तबसे तू गीसी दीखरही है, हे देवि ! इस लिए हम दासियें आपसे कहती हैं ॥ ४६ ॥ यह उसे कैसा मोह है, कैसा मौन है, कैसा सोना है और कैसा मुरझाना है, हे देवि ! इस बातको

(६७८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [सप्तदशाधिकशततम

कण्ठशान्तये ॥ ४८ ॥ शिरीषपुष्पसदृशं यच्छरीरं सुकोमलम् ।
तत्कर्त्तुं सहते देवि व्याधिभारं वरानने ॥४९॥ इति श्रुत्वा तदा
देवी सत्वेरा हंसगामिनी । प्राप्य देशमुपा यत्र किमिदं कण्ठलत-
णम् ॥ ५० ॥ पल्लवाकृतिहस्तेन कोमलं तत्करं तदा । स्पृष्ट्वा-
शुलीरनायासं स्फोटयामास भामिनी ५१ किमस्ति तव कल्याणि
का व्यथा तव वर्तते । एते वीर्याः समागत्य पृच्छन्ति भवतीं हि
तत् ॥ ५२ ॥ वीर्या ऊचुः । जलक्रीडां गता तत्र राजपुत्री सखी-
गणैः । पार्वत्याः क्रीडितं तत्र जानीमः श्रमसम्भवम् ॥ ५३ ॥
श्रमाद्ग्लानिः समुत्पन्ना जृम्भणं च पुनः पुनः । स्वापश्च जायते
त्रेण गो भयं कर्तुमर्हसि । देव्युवाच । हृदये निहितं वीर्यचन्दनं
हिमसंयुतम् । अमातंगाः किमिदं शीघ्रं किमिदं बुब्बुदायते ॥५५॥

विचार कर तुम कष्ट शान्त करनेके लिए वैद्यको भेजो ॥४८॥
हे वरानने ! शिरीषके पुष्पकी समान सुकोमल शरीर व्याधिके
भारको कैसे सह सकेगा ॥४९॥ इस बातको सुन कर यह क्या
कष्ट है (कह कर) हंसगामिनी देवी (उपाकी माता) त्वराके
साथ जहाँ उपा थी तहाँको चली ५० तदनन्तर वह भामिनी पल्लव
के आकृति वाले हाथसे उसके कोमल हाथको पकड़ कर उसकी
अँगुलियोंको सड़लाने लगी ॥ ५१ ॥ (वह कहने लगी, कि-)
ये वैद्य तुझमे वृष्ण रहे हैं हे कल्याणि ! तुझें क्या व्यथा हो
रही है, तुझें क्या कष्ट हो रहा है, ॥५२॥ वीर्योंने कहा, कि-
राजपुत्री अपनी सखियोंके साथमें लेकर पार्वतीके खेलमें जल
क्रीडा करनेगो गई थी, हमें प्रतीत होता है, तहाँ पर इसे श्रम
पड़ा होगा ॥५३॥ श्रमके कारण इसको ग्लानि उत्पन्न होगई
है और बार बार जैपाई आती है और इसी मकारण इसको नींद
आरही है, अतः तुम्हें भय नहीं करना चाहिये ॥ ५४ ॥ देवीने
कहा, कि-हे वीर्यों! मैंने इसके हृदय पर बरफ मिला हुआ चन्दन

अतिदाहो महान् खेदः पिपासा न बुभुक्षते । प्रलाप एव किं
 तस्यां शास्त्रतो व्रत निश्चितम् ॥ ५६ ॥ वीद्या ऊचुः । क्रीडा-
 विहारे मिलिताः स्त्रीजना देवसन्निधौ । रूपेणामतिगा देवी राज-
 पुत्री च भाविनी ॥ ५७ ॥ दृष्टिपातः कृतस्ताभिस्ते । पुत्र्यां व्यथा-
 भवेत् । रत्नामन्त्रैस्तथा पीतैः सर्पपैस्तां कुमारिकाम् ॥ ५८ ॥
 पानीपैरभिपेक्षेण परा शान्तिर्भविष्यति । इत्युक्त्वा भिषजः सर्वे
 निवृत्ता वृषवेशपतः ॥ ५९ ॥ सूचयन्तः पुनः सर्वे वागाभिप्रायजां
 व्यथाम् । मातृपृष्ठा वरारोहा चिरकालपुत्रान सा ॥ ६० ॥ लज्जा-
 वती महाभागा मातरं रुदती भृशम् । मातर्न रोचते नित्यं भाषणं
 न च भोजनम् ॥ ६१ ॥ न चाप्युत्सवकं गातः सदा हि हृदयं शृणु ।

रक्ता था हे मंत्रियों! शीघ्रतासे यह बुद्धबुद्धसा क्या होरहा है ५५
 इसे बड़ा भारी दाह होरहा है, बड़ा खेद होरहा है और इसकी
 प्यास शान्त नहीं होती और यह इसका मलाप कैसे है, इस
 बातका शास्त्रसे निश्चय करके कहे ॥ ५६ ॥ वीद्याने कहे, कि-
 महादेवजीके समीप क्रीडा विहारमें बहुतसी स्त्रियाँ आगी थी और
 यह भाविनी राजपुत्री रूपमें अद्वितीय है ५७ इन (आई हुई)
 स्त्रियोंने तुम्हारी पुत्रीको नजर लगा दी अब इय कुमारिकाकी
 रक्षायंत्रोंसे और पीली सरसोंसे रक्षा करनी चाहिये ॥ ५८ ॥
 और जल छिड़कनेसे इसको परमशान्ति मिलेगी इस प्रकार कह
 कर सब वीद्य गजाके घरसे चले गए ॥ ५९ ॥ फिर इसकी कामके
 अभिप्रायकी व्यथा है यह आपसमें कहते हुए चले गए, माताके
 वृक्षते रहने पर बहुत समयमें उस वरारोहाने कहा, ॥ ६० ॥
 वह लज्जावती महाभागा अपनी मातासे रोकर कहने लगी, कि-
 हे माता ! मुझे बहुत बोलना और भोजन करना अच्छा नहीं
 लगता ६१ और सुन ! हे माता ! मेरा हृदय भी मदा उरसाह
 युक्त नहीं रहता है इस प्रकार कह कर श्रेष्ठ मुख वाली ऊगा जुग

इत्युक्त्वा विररागाथ द्युपा नारी वरानना क्षीरं सुकोमल-
रारव्यमन्योन्यं मुखवीक्षणम् । लज्जानुकारि-नारि, श्रुत्वा त-
भवेदिति ॥ ६३ ॥ इयं च राजकन्या हि भर्तृयोग्या कि-
पितुः प्रसादान्मातुश्च माण्डुयात् सदृशं वरम्, ॥ ६४ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि वाणयुद्धे उपा-
विरहो नाम सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥

वैशम्पायन उवाच । तत्रस्थाः परमा नार्यश्चित्रेण परमा-
द्भुताः । ततो हर्म्ये शयानां तु वीशाखे मासि भाविनीम् ॥ १ ॥
द्वादश्यां शुक्लपक्षस्य सखीगणवृतां तदा । यथोक्तः पुरुषः स्वप्ने
रमयासास तां शुभाम् ॥ २ ॥ विचेष्टमाना रुदती देव्या वचन-
चोदिता । सा स्वप्ने रमिता तेन स्त्रीभावं चापि लम्बिता । शोणि-
ताक्ता मरुदती सहस्रैवोत्थिता निशि ॥३॥ तां तथा रुदती दृष्ट्वा

होगई ॥६२॥ उस समय सब स्त्रियों एक दूसरे का मुख देखने
लगीं कि-लज्जा पूर्वक स्त्रियोंका यौवनकाल आरम्भ होता है
और यह राजकन्या भी स्वामीके योग्य होगई है अतः तुम क्या
कहती हो, यह पिता माताके प्रसादसे अपने सगान वरको
पावे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ एक सौ सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ११७

वैशम्पायनजीने कहा, कि-तहाँ पर श्रेष्ठ स्त्रियें रहती थीं और
वह चित्रकलामें परम चतुर थीं, तदनन्तर वह भामिनी वैशाख-
मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीकी रात्रिमें अपने भवनमें सोरही थी
और उसके पास उसकी सखियों भी थी, इतनेमें ही स्वप्नमें पूर्वोक्त
पुरुषने ऊपाके साथ रमणकिया ॥ १ ॥ २ ॥ वह स्वप्नमें चेष्टा
करने लगी और रोने लगी तब भी देवीने उससे वचन कह दिया
था इसलिये उस पुरुषने स्वप्नमें उसके साथ रमण किया और
उसमें स्त्रीभावसम्पन्न करदिया, तब वह रक्तसे सनी हुई स्त्री सहसा
रात्रिमें उठ बैठी है उसको इसप्रकार रोनी हुई देख कर उसकी

समन्विता । चित्रलेखा वचः स्निग्धमुखा च परमाद्भुतम् ४
 भैः किमेवं त्वं रुदती परितप्यसे । बलेः सुतमुता च तं
 विधाता किं भयान्विता ॥ ५ ॥ न भयं विद्यते लोके तत्र सुभ्रु
 वेशोपतः । अभयं तत्र वामोरु पिता देवान्तको रणे ॥ ६ ॥
 वल्लिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते विषादं मा कृथाः शुभे । नैवविधेषु वासेषु
 भयमस्ति वरानने ॥७॥ असकृद्देवसहितः शचीभर्ता सुरेश्वरः ।
 अपाप्त एव नगरं पित्रा ते मृदितो रणे ॥ ८ ॥ अयं देवसमूहस्य
 भयदर्श च पिता तव । महासुरवरः श्रीमान् बलेः पुत्रो महाबलः ६
 एवं साभिहिता सरथा बाणपुत्री यशस्विनी । स्वप्ने रूपं यथा
 दृष्टं न्यवेदयदनिदिता ॥१०॥ उपोवाच । एवं सन्धिपिता साधि
 कथं जीवितुमुत्सहे ॥ ११ ॥ पितरं किं नु वक्ष्यामि देवशत्रुमरिद-

सखी चित्रलेखा डर गई, और उसने स्नेहसे भरा हुआ परम
 अद्भुत वचन कहा, कि-॥ ४ ॥ हे ऊषे ! तू डर मत ! तू
 इस प्रकार रोकर क्यों परिताप कर रही है, तू बलिके पुत्रकी मसिद्ध
 पुत्री होकर भी क्यों डर रही है ॥५॥ हे सुभ्रु ! तुझे तो संसार
 में भय होना ही नहीं चाहिये, हे वामोरु ! तेरा पिता रणमें देव-
 ताओंके लिए काल बन जाता है, अतः तुझे तो निर्भय ही रहना

चाहिये ॥६॥ उठ ! उठ ॥ हे शुभ ! हे भद्र ! तू घृणा ही विषाद
 न कर हे वरानने ! ऐसे महलोंमें भयका क्या काम ? ॥ ७ ॥
 तुम्हारे पिताने अपने नगरमें न आने पर भी देवताओंसहित इन्द्र
 को रणमें अनेक बार रगड़ा है ॥८॥ तुम्हारे पिता महान् असुर
 हैं, बलिके पुत्र हैं, महाबली हैं और यह देवताओंके समूहको भी
 भयभीत कर देते हैं ॥९॥ सखीके इस प्रकार कहने पर अनिन्दिता
 यशस्विनी बाणपुत्रीने स्वप्नमें जिस प्रकार (जो) देवा था, वह
 कह दिया ॥ १० ॥ उपाने कहा, कि हे साधि ! उस प्रकार
 धर्षणा पाकर मैं कैसे जीवित रहना चाह सकती हूँ ॥११॥ इम

(६८२) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [अष्टादशाधिकशततम

मम् । एवं सन्दूषणकरी वंशस्यास्य महौजसः ॥१२॥ श्रेयो, हि
मरणं मह्यं न मे, श्रेयोऽद्य जीवितम् । ईप्सितो वा यथा कोऽपि
पुरुषो विगतो हि मे ॥ १३ ॥ जाग्रतीव यथा चाहमवस्थेयं कृता
मम । निशायां जाग्रतीनाहं नीता केन दशामिगाम् । कथमेवं कृता
नाम कन्या जीवितमुत्सहे ॥१४॥ कुलोपक्रोशनकरी । कुलागारी
निराश्रया । जीवितं न स्पृहेन्नारी साध्वीनामग्रतः स्थिता १५
इत्येवं वाष्पपूर्णाङ्गी सखीजनवृता तदा । विललाप निरं काल-
मुपा कमललोचना ॥१६॥ अनाथवत्तां रुदतीं सख्यः सर्वा नि-
चेतसः । ऊचुरश्रुपरीताङ्गीमुर्वा सर्वाः समागताः ॥१७॥ दुष्टेन
मनसा देवि शुभं वा यदि वाऽशुभम् । क्रियते न, च ते सुभ्रु

महापराक्रमयुक्त वंशमें इस प्रकार दूषण लगा कर मैं अपने देव-
ताओंके शत्रु अरिदमन पितासे क्या कहूँगी ? ॥ १२ ॥ मेरा तो
मर जाना ही अच्छा है, अब मेरा जीवित रहना अच्छा नहीं है,
निसं प्रकार कोई अभिलषित पुरुष आवे तिस प्रकार वह मेरे
पास (कैसे आया था) । १३ उसने तो जागती हुईकी समान
(स्वप्नमें) मेरी यह अवस्था कर डाली, क्या मैं रातमें जाग रही
थी तब उसने मुझे लेजाकर मेरी ऐसी दशा कर डाली क्या ?

हा ! मैं कन्या होनेपर भी इस प्रकारकी होकर कैसे जीवित रह
सकती हूँ ॥ १४ ॥ साध्वियोंके सामने खड़ी होनेपर कुलको चाते
सुनवाने वाली कुलाङ्गरिणी निराश्रया नारी, किस प्रकार जीवित
रहना चाह सकती है १५ सखियोंसे घिरी हुई कमललोचना ऊपार
नेत्रोंमें आँसू भर कर इस प्रकार बहुत देर तक विलाप करती
रही १६ तब घबड़ा कर आई हुई, उन सब सखियोंने अनाथकी
समान रोती हुई अश्रुओं से व्याप्त नेत्र वाली ऊपासे कहा, कि-१७
हे देवि ! दूषित मनसे जो शुभ वा अशुभ काम किया
जाता है (उसका फल मिला है) परन्तु हे सुभ्रु ! हे शुभे !

किंचिद् दुष्टं मनः शुभे ॥ १८ ॥ प्रसन्नं देवसंगो गायति भुक्तासि
 भामिनि । स्वप्नयोगेन कल्प्याणि व्रतलोपो न विद्यते ॥ १९ ॥
 व्यभिचारेण ते देवि नास्ति कश्चिन्नतिक्रमः । न च स्वप्नकृपो
 दोषो मर्त्यलोकेऽस्ति सुन्दरि ॥ २० ॥ एवं विपर्ययो देवि धर्मज्ञाः
 कथयन्ति वै । मनसा चैव वाचा च कर्मणा च विशेषतः । दुष्टा या
 त्रिभिरेतैस्तु पापा सा मोक्षपते दुष्टैः २१ ॥ न च ते दृश्यते भीरु
 मगः मनलितं सदा । कथं त्वं दोषसन्दुष्टा नियता ब्रह्मचारिणी
 यदि सुप्ता सती साध्वी शुद्धभावा मनस्विनी । इमामवस्थां प्राप्ता
 त्वं नैव धर्मो बिलुप्यते ॥ २२ ॥ यस्यां दुष्टं मनः पूर्वं कर्मणा
 चोपपादितम् । तामाहुः प्रसती नाम सती त्वमसि भामिनि ॥ २४ ॥
 कुलना रूपसम्पन्ना नियता ब्रह्मचारिणी । इमामवस्थां नीवासि

तुम्हारा मन कुछ दूषित नहीं था (अथः तुम्हें पाप नहीं लग
 सकता) ॥ १८ ॥ हे भामिनि ! पारञ्चरश राममें किसीने तुम्हें
 बलपूर्वक भोग लिया तो हे कल्प्याणि ! उससे तुम्हारे व्रतका
 लोप नहीं हो सकता ॥ १९ ॥ हे देवि ! तुमने कोई व्यभिचार
 का काम नहीं किया है, और हे सुन्दरि ! मृत्युलोकमें स्वप्नका
 कुछ दोष नहीं माना जाता २० हे देवि ! अज्ञ विपर्यय कहते हैं,
 कि-मन बाणी और विशेषतः कर्म-इन तीनोंसे जो दूषित होनी
 है, उसको बुद्धिमान् पुरुष पापिनी कहते हैं ॥ २१ ॥ हे भीरु !
 तेरा मन तो कभी चञ्चल नहीं दी गता है, फिर तू दोषदूषित किस
 प्रकार होसकती है, तू तो ब्रह्मचारिणी ही है २२ तू सती साध्वी
 मनस्विनी शुद्धभावसे सोई थी, फिर भी यदि तेरी ऐसी अवस्था
 होगई तो इस प्रकार धर्म लुप्त नहीं होना है ॥ २३ ॥ जिसका मन
 पहिले दूषित होता है फिर वह वीसा ही कर्म कर लेनी है उसको
 असती कहते हैं, हे भामिनी ! तू तो सती है २४ तू कुलीन है,
 रूपसम्पन्न है, सर्वदा ब्रह्मचारिणी रहती है, अब तेरी ऐसी

(६८४) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * अष्टादशाधिकशततम

कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २५ ॥ इत्येवमुक्ता रुदती वाष्पेणावृत-
लोचनाम् । कुम्भाण्डदुहिता वाक्यं परमं त्विदं व्रवीत् ॥ २६ ॥
त्पन शोकं विशालान्ति अपापा त्वां वरानने । श्रुतं मे यदिदं वाक्यं
याथातथ्येन तच्छृणु ॥ २७ ॥ उपे यदुक्ता देव्यासि-भर्तारं ध्यायती
तदा । समीपे देवदेवस्य स्मर भामिनि तद्वचः ॥ २८ ॥ द्वादश्यां
शुक्लपक्षस्य वीशाखे मासि यो निशि । हर्म्ये शयानां रुदती
स्त्रीत्वां समुपनेष्यति ॥ २९ ॥ भविता स हि ते भर्ता शूरः शत्रुः
निवर्हणः । इत्पुत्राच वचो हृष्टा देवी तव मनोगतम् ॥ ३० ॥ न
हि तद्वचनं मिथ्या पार्वत्या यदुदाहनम् । सा त्वां किमिदमत्यर्थं
रोदिषीदुनिभानने ॥ ३१ ॥ एवमुक्ता तथा बाला स्मृत्वा देवी-
वचस्ततः । अभवन्नष्टशोका सा वाणपुत्री शुभेक्षण ॥ ३२ ॥

अवस्था होगई, हा ! कालको लौघना वड़ा कठिन है २५ इस
प्रकार कहनेपर (भी) रोती हुई नेत्रोंमें आँसू भरती हुई ऊपरसे
कुम्भाण्डकी पुत्रीने एक और श्रेष्ठ बात कही, कि-२६ हे विशाल
नेत्रों वाली तू शोक करना छोड़ दे, हे सुन्दरमुखि ! तू निष्पाप
है, मैंने जो बात सुनी है उसको तू ठीक तरहसे सुन २७ तूने देव-
देव (शंकर) के समीप जब स्वामीका चिन्तन किया था, उस
समय उगाने जो वचन कहा था हे भामिनि ! तू उस वचनका
स्मरण कर २८ कि-“वीशाखमासके शुक्लपक्षकी द्वादशीकी रात्रिमें
तू अपने घरमें सोरही होगी, तब स्वप्नमें जो पुरुष तेरे रोने पर
भी तुझमें स्त्रीत्वधर्म ला देगा २९ वह शत्रुओंको मारने वाला
शूर वीर पुरुष ही तेरा स्थायी होगा” देवीने मसन्न होकर इस
प्रकार तेरे मनकी बात कह दी थी ३० पार्वतीने जो साप्त्तनामय
बात कही है, वह मिथ्या नहीं होगी, अतः हे भामिनि ! तू क्यों
बहुन रो रही है ३१ जब उस बालासे इस प्रकार कहा तब शुभ
नेत्रों वाली वाणपुत्रीका शोक, उमाके वचनकी याद आनेसे, नष्ट

उपोवास । स्मरामि भामिनि वचो देव्याः क्रीडागते भवे । गयोक्तं
सर्वमखिलं मासं हर्मगतले मया ॥ ३३ ॥ भर्ता तु मम यद्येष
लोकनाथस्य भार्यया । वचादिष्टः स कथं ज्ञेयस्तत्र कार्यं विधीय-
ताम् ॥ ३४ ॥ इत्येवमुक्तवचने कुम्भाण्डदुहिता पुनः । व्याजहार
यथान्यायमर्थतत्त्वविशारदा ॥ ३५ ॥ न हि तस्य कुलं देवि न
कीर्तिर्नामि परिरूपम् । कभिज्जानाति तत्त्वेन किपिदं त्वं विमु-
क्षसे ॥ ३६ ॥ अदृष्टश्चाश्रुतरश्चैव दृष्टः स्वप्ने च यः शुभे । कथं
ज्ञेयो भवेद्भीरु सोस्माभिरतितस्करः ॥ ३७ ॥ येन त्वमसिता-
पांगि मत्तकाशिनि विक्रमात् । रुदती मसभं भुक्ता मविश्यान्तः-
पुरं सखि ॥ ३८ ॥ न ह्यसौ प्राकृतः कश्चिद्यः मविष्टः मसह ते ।
नगरं लोकविख्यातयेकः शत्रुनिवर्हणः ॥ ३९ ॥ आदित्या वसत्रो

होगया ३२ उपाने कहा, कि हे भामिनि ! महादेवजीकी क्रीडाके
समयके देवीके वचनको मैं याद करती हूँ, तो उन्होंने जिस प्रकार
कहा था, उसी प्रकार मुझे सब मास होरहा है ॥ ३३ ॥ लोकनाथ
शिवकी भाषानि यदि यह भर्ता बना दिने हैं, तो इनसे परिचय
किस प्रकार हो ? इस कामको करना चाहिये ॥ ३४ ॥
इम प्रकार कहने पर अर्थतत्त्वविशारदा कुम्भाण्डकी पुत्रीने उससे
न्यायानुसार वचन कहा, कि-३५ हे देवि ! उसके कुलको कोई
नहीं जानता और उसके पुरुपार्थ वा प्रीतिको भी कोई नहीं जानता
फिर हे देवि ! तुम मोहमें क्यों पड़ रही हो ॥ ३६ ॥ जिसको न
देखा है, न सुना है, केवल स्वप्नमें ही देखा है, हे भीरु ! उस बड़े
भारी चोरको कैसे जाना जासकता है ॥ ३७ ॥ हे मत्तकाशिनि !
हे असितापाङ्गि ! हे सखि ! जिसने अन्तःपुरमें घुस कर तुम्ह
रोती हुईके साथ बलपूर्वक समागत किया था ॥ ३८ ॥ वह कोई
प्राकृत (साधारण) मनुष्य नहीं होगा, जो इस संसारमसिद्ध
नगरमें घुस कर बलात्कार करसकता है, वह शत्रुनाशक वीर अद्वि-

(६८६) * महाभारत हरिवंशपर्व २ * [अष्टादशाधिकशततम

रुद्रा अश्विनी च गर्हो जसौ । न शक्ताः शोणितपुरं प्रवेष्टुं भीम-
निक्रमाः ॥४०॥ सोममेतैः शनगुणर्विशिष्टश्च रिसूदनः । मनिष्टः
शोणितपुरं बाणमाक्रम्य मूर्धनि ॥ ४१ ॥ यस्या नैनंविशो भर्ता
भवेद्युद्धविशादः । करतस्या जीवितेनार्थो भोगैर्वास्त्यभ्युजेत्तणे
धन्वास्थदुग्धीनासि यस्यास्ते पतिरीदृशाः । प्राप्तो देव्याः प्रसा-
देन फन्दर्पसपविक्रमः ॥ ४३ ॥ इदं तु मत्कार्यतमं शृणु त्वं तनू-
मगेरितम् । विज्ञेयो यस्य पुत्रो नै यन्नामा यत्कुलश्च सः ४४
इत्येनमृक्ते वनने तत्रोभा कामपोहिता । उवाच कुम्भाएडमुता कथं
ज्ञास्याम्यहं सखि ॥ ४५ ॥ त्वमेव चिन्तय सखि नोत्तरं प्रति-
भाति मे । स्वकार्ये मुद्यो लोको यथा जीवं लगाम्यहम् ॥ ४६ ॥
उवाचा वननं श्रुत्वा रागा वाक् । गिदं पुनः । उवाच रुदती चोपा

तीय ही हांगा ३६ भयङ्कर पगकपी आदित्य वसु रुद्र और महा-
बलवान् अश्विनीकुमार भी शोणितपुरमें नहीं घुस सकते ॥४०॥
फिर भी यह अरिगर्दन बाणासुरके मस्तक पर लात मार कर
शोणितपुरमें घुस आया अतः यह (पूर्वोक्त देवताओंसे भी)
सांगुणा अधिक होगा ॥ ४१ ॥ हे कपलनेत्रे । जिसका ऐसा युद्ध-
विशाद स्वापो न हो उनको जीवनसे और भोगोंसे क्या भयो-
जन है ॥४२॥ तूने उपादेवीके प्रसादमे कामदेवकी सपान विक्रमी
पुत्र पाया है, अतः तू धन्य है । अनुग्रहोग है ॥ ॥४३॥ अब जो
मुण्य कार्य है, उमर्के तू मेरे कहनेसे सुन, 'यह जिसके पुत्र हो,
जो इनका कुल हो' इस बातका पना लगाना चाहिये ॥ ४५ ॥
इस प्रकार शन कहने पर कामने पोहित हुई उपाने कुम्भाएडकी
पुत्रीसे पहा, कि-हे सखि । मैं इन नागोंको कर्मे जानूँ ॥४५॥
हे मणि ! तू ही इस बातका विचार कर मुझसे तो कुछ उत्तर
नहीं दिया जाया, अपने काममें सब आदमी मोहमें पड़ जाते हैं
इसी प्रकार मेरा जीवन भी मोहमें पड़ रहा है ॥ ४६ ॥ उपाने

कुम्भाण्डदुहिता सखी ॥ ४७ ॥ कुशला ते दिशालाक्षि सर्वथा
सन्धिचिग्रहे । अप्सरा चित्रलेखा नै क्षिप्रं विज्ञाप्यतां सखि ४८
अस्याः सर्वगणेषु त्रैलोक्यं निदितं सदा । एवमुक्ता तदैवोषा
हर्षेणागतनिस्मया ॥ ४६ ॥ तामप्सरसमानाद्य चित्रलेखां सखीं
पिगाम् । कृताञ्जलिपुटा दीना उषा वचनमब्रवीत् ॥ ५० ॥ सा
तच्छ्रुत्वा तु वचनमुपायाः परिकीर्तितम् । आश्वासयामास सखी
बाणपुत्री यशस्विनीम् ॥ ५१ ॥ ततः सा निस्मयाविष्टा वचनं
माह दुर्बलम् । चित्रलेखापप्सरसं प्रणयात्तां सखीमिदम् ॥ ५२ ॥
परमं शृणु मे वाक्यं यत्त्वां वक्ष्यामि भाविनि । भर्तारं यद् मेऽद्य
त्वां जानयिष्यसि महिप्रयम् ॥ ५३ ॥ कान्तं पद्मपलाशाक्षं मत्त

वचनको सुन कर कुम्भाण्डकी पुत्री ऊपाकी सखी रामाने रोती
हुई ऊपासे यह बात फिर कही, कि—(कुम्भाण्डकी पुत्रीका नाम
राणा था, वह चित्रलेखाके अशसे उत्पन्न हुई थी, धनः उसे पहिले
चित्रलेखा भी कहा है) ॥ ४७ ॥ हे विशालाक्षी सखि ! सन्धि
आर चिग्रहमें सब प्रकारसे चतुर चित्रलेखा नामवाली अप्सरा
को इस बातकी सूचना देनी चाहिये ॥ ४८ ॥ चित्रलेखाकी सब च तें
उसको पूर्ण रीतिसे निदित है, इस प्रकार कहने पर ऊपाको हर्ष
के कारण निस्मय होने लगा ४६ और उसने अपनी प्यारी सखी
चित्रलेखा अप्सराको बुलवा लिया, तदनन्तर ऊपाने दोनों हाथ
जोड़ दीन होकर (चित्रलेखासे) बात कही ॥ ५० ॥ ऊपाकी वही
हुई बातको सुनकर ऊपाकी बहनेली चित्रलेखाने यशस्विनी बाण-
पुत्रीको धीरज दिया ॥ ५१ ॥ तदनन्तर विरमयमें भरीहुई ऊपा
ने प्रणय (प्रेम) वश आई हुई चित्रलेखा अप्सरासे यह कठिन
से कहने योग्य बात कही, कि—॥ ५२ ॥ हे भाविनि ! मैं तुझसे
जो बड़ी बात कहती हूँ, उसको तू सुन हे तन्मग्नयमे ! यदि तू
पद्मपत्रकी समान नेत्र बाले; मत लो दायीपी समान चलने वाले

(६८८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [अष्टादशाधिकशततम

मातङ्गगामिनम् । त्यक्ष्याम्यहं ततः प्राणानचिरात्तनुमध्यमे ५४
चित्रलेखाव्रवीद्वाक्यमुपां हर्षयती शनैः । नैपोर्थः शक्यतेस्माभिर्वैतुं
भामिनि सुव्रते ॥५५॥ न कुलेन न वर्णेन न शीलेन न रूपतः ।
न देशतश्च विज्ञानः स हि चौरो मया सखि ॥५६॥ किं तु कर्तुं
यथाशक्यं बुद्धिपूर्वं मया सखि । प्राप्तं च शृणु मे वाक्यं यथा-
कामपवाप्स्यसि ॥५७॥ देवदानवयज्ञाणां गन्धर्वोरगरत्नसाम् ।
ये विशिष्टाः प्रभावेण रूपेणाभिजनेन च ॥ ५८ ॥ यथाप्रभावं
तान् सर्वानालिखिष्याम्यहं सखि । मनुष्यलोके ये चापि प्रवरा
लोकविश्रुताः ॥ ५९ ॥ सप्तरात्रेण ते भीरु दर्शयिष्यामि तान-
हम् । ततो विज्ञाय पादस्थं भर्तारं प्रतिपत्स्यसे ॥ ६० ॥ सां
चित्रलेखया प्रोक्ता उपाहितचिकीर्षया । क्रियतामेवमित्याह चित्र-
लेखां सखीं नियाम् ॥ ६१ ॥ ततः कुशलहस्तत्वाश्रयालेख्यं समं-

मेरी प्यारे स्वामीको मेरे पास न लावेगी तो हे तनुमध्यमे ! मैं
आज अपने प्राणोंको त्याग दूँगी ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ तब चित्र-
लेखाने ऊपाको हर्षित करते हुए धीरेसे यह बात कही कि-हे
सुव्रते ! यद्यपि हम इस बातको नहीं कर सकती ॥५५॥ क्योंकि-
हे सखी मैं इस चोरके कुत्र वर्ण शील रूप और देशको नहीं
जानती किन्तु हे सखि ! मैं उसमें यथाशक्ति बुद्धि लड़ाऊँगी अब
जिसप्रकार तेरा मनोरथ पूर्ण होगा, उस समयोचितवातको तू सुन
देव दानव यज्ञ गन्धर्व सर्प और राक्षसोंमें जो प्रभाव रूप और
देशमें श्रेष्ठ हैं उनको और मनुष्य लोकमें (इनके अतिरिक्त और
जो) श्रेष्ठ व्याक्त हैं उनको भी अपने प्रभावके अनुसारमें सात
रातमें लिख दिगाऊँगी, तब तू पाद (तसवीर खींचनेके कागज)
पर अपने भर्ताके पासकेगी ॥५८-६०॥ ऊपाके दिन की इच्छा
में चित्रलेखाके इस प्रकार कहने पर उसने अपनी प्यारी सखी
नियोजेगीसे कहा; कि-हाँ ऐसा ही करो ॥ ६१ ॥ इस प्रकार

ततः । इत्थुक्त्वा सप्तरात्रेण कृत्वा लेख्यगतांस्तु तान् ॥ ६२ ॥
 चित्रपट्टगतान् मुख्यानामगामास शोभना । ततः प्रास्तीर्णं पट्टं सा
 चित्रलेखा स्वयंकृतम् ॥ ६३ ॥ उपायैर्दर्शनामास सखीनां तु
 विशेषतः । एते देवेषु ये मुख्यास्तथा दानववंशजाः ॥ ६४ ॥ किं-
 नरोरगपक्षाणां राक्षसानां सगन्ततः । गन्धर्वसुरदैत्यानां ये चान्ये
 भोगिनः स्मृताः ॥ ६५ ॥ मनुष्याणां च सर्वेषां ये विशिष्टतमा
 नराः । तानेतान् पश्य सर्वास्त्वं यथैव लिखितान् मया ॥ ६६ ॥
 यस्ते भर्ता यथारूपो मयाभिलिखितः सखिः । तं त्वं प्रत्यभिजा-
 नीहि स्वप्ने यं दृष्टवत्यसि ॥ ६७ ॥ ततः क्रमेण सर्वास्तान् दृष्ट्वा
 सा मत्तकाशिनी । देवदानवगन्धर्वविद्याधरगणानथ । अतीत्य च
 यदून् सर्वान् ददर्श यदुनन्दनम् ॥ ६८ ॥ तत्रानिरुद्धं दृष्ट्वा सा
 विस्मयोत्फुल्ललोचना । उवाच चित्रलेखां तामयं चौरः स वै

कहने पर वह हस्नकुशल होनेसे सात रातमें मुख्य २ व्यक्तियों
 के चित्र कागज़ों पर खींच लाई तदनन्तर चित्रलेखा अपने बनाये
 हुए चित्रोंके पल्लवमको खोल कर ऊपाको और उसकी सखियों
 का दिखाने लगी, (उसने कहा, कि-) जो देवताओंमें मुख्य २
 व्यक्ति हैं और जो दानवोंके वंशमें उत्पन्न हुए मुख्य व्यक्ति हैं
 किंनर सर्प यक्ष राक्षस दैत्य और असुरोंमें भी जो भोगवान्
 कहलाते हैं और जो मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं, उन सबमेरे लिखे हुआंको
 तू देख ६२-६६हेसखि ! तेरा स्वामी जैसे रूपवाला होगा, उसको
 मैंने इसमें चित्रित कर दिया होगा, अतः तूने स्वप्नमें जिसको
 देखा हो, उसको पहिचानाले ६७ तदनन्तर वह मत्तहोनेसे खिलने
 वाली ऊपा उन सबके चित्रोंको देखनेलगी, उस समय उसने
 देव दानव गन्धर्व विद्याधरगण और सब यादवोंके चित्र देखने
 के अनन्तर यदुनन्दन अनिरुद्धको देखा ॥ ६८ ॥ अनिरुद्धको देख
 कर ऊपाके नेत्र इर्षसे खिलगए और उसने कहा; कि-हे हे सखि।

सखि ॥ ६६ ॥ येनाहं दूषिता पूर्वं स्वप्ने हर्म्यगता सती । सोऽयं
 विज्ञातरूपो मे कुतोऽयं रतितस्करः ॥ ७० ॥ चित्रलोके यदहो न
 तत्त्वतो मम शोभने । कुलशीलागिजनतो नाम किं चास्य भागिनि
 ततः पश्चाद्विनास्पति कार्गस्थास्य चिनिश्चयम् ॥ ७१ ॥ चित्र-
 लोकोनाम । अयं त्रैलोक्यनाथस्य नम्रा कृष्णस्य धीपमः । भर्ता
 तत्र विशालान्ति प्राद्युम्निर्भोषविक्रमः ॥ ७२ ॥ न हस्ति त्रिपु-
 लोकेषु सदृशोस्य पराक्रमे । उन्नाट्य पर्वतानेष पर्वतैरेव शात-
 येत् ॥ ७३ ॥ धन्यास्यनुग्रहोनासि यस्यास्ते यदुपुङ्गवः । व्यक्त-
 पत्या सपादिष्टः सदृशः सज्जनः पतिः ॥ ७४ ॥ उपोवाच । त्वमे-
 वात्र विशालान्ति योग्या भव धरानने । न शक्या हि मतिधान्या-
 अगत्या मे गविर्भय ॥ ७५ ॥ अन्तरिक्षचरा च त्व योगिनी काय-

यह जोर यह रहा ॥ ६६ ॥ इसने मुझे अपने भवनमें स्वप्न में
 दूषित किया था, इस लिये मैंने इसके रूपको पहिचान लिया,
 यना यह रतितस्कर कहाँ रहता है ॥ ७० ॥ हे शोभने चित्रलोके !
 इनकी ठीक २ बात मुझे बनाओ, हे भागिनि ! इनका नाम क्या
 है ? कुल कैसा है ? और इनका कुटुम्ब कैसा है, इन सब बातोंका
 वर्णन करो ॥ ७१ ॥ चित्रलोके कहा, कि-हे विशालान्ति !
 यह तुम्हारे स्वामी, त्रिलोकीके स्वामी बुद्धिमान् कृष्णके पोते हैं
 और यह भयंकर पराक्रमी तुम्हारे स्वामी प्राद्युम्नके लहके है ७२
 चित्रोर्ध्वमें इनके समान कोई पराक्रमी नहीं है वह पर्वतोंको उठा
 कर पर्वतोंको भी मोड़ सकते हैं ॥ ७३ ॥ तू धन्य है ! अनुग्र-
 हीन है ! क्योंकि-त्रिलोचन शिवकी पत्नीन तुम्हे ऐसा बेरी सगान
 सज्जन स्वामी दिया है; ॥ ७४ ॥ उपाने, कहा कि-हे विशालान्ति !
 हे धरानने ! इस कामको करनेके योग्य तू ही है, मेरी और कोई गति
 नहीं है, तू मुझ अगणिकी गति बन ७५ तू अन्तरिक्षमें निचरनेवाली
 है, योगिनी है, और तू उरानुमार रूप धारण कर सकती है

रूपिणी । उपायस्यास्य कुशला त्तिमयानय मे प्रियम् ॥ ७६ ॥
 उपायविनश्यतां भीरु संप्रवर्त्य प्रिये सुवम् । सिद्धार्था संनिवर्तस्व
 तेनोपायेन सुन्दरि ॥ ७७ ॥ भवेद्वापस्तु यन्मित्रं तन्मित्रं शस्यते
 द्युधैः । कार्पाणा वास्मि सुश्रोणि भव मे प्राणवारिणी ॥ ७८ ॥
 यद्येनं मे विशालान्ति भर्तारगगरोपमम् । अद्य नानयसि त्तिपं
 प्राणास्तपद्गाम्गहं शुभे ७९ उपाया वचनं श्रुत्वा चित्रलेखावती-
 द्वयः । श्रोतुमर्हसि कन्याणि वचनं मे शुचिस्मिते ॥ ८० ॥ यथा
 वाणस्य नगरी रक्षते देवि सर्वशः । द्वारकापि तथा भीरु दुरा-
 थर्षा सुरैरपि ॥ ८१ ॥ अयस्यप्रतिच्छन्ना युसद्दारा च सा पुगी ।
 युष्ठा वृष्णिर्गु ॥ ८२ ॥ तयो द्वारकावासिनिः ॥ ८२ ॥ मान्ते सलि-
 संपुक्ता विहिता विश्वकर्माणा । रक्षते पुष्पैर्वोरैः पद्मनाभस्य

अनः तू इम उपायमें भी कुशल (अवश्य) होगी, अतः तू मेरे प्रियको
 शीघ्र लेभाना ७६ हे भीरु ! अब तू प्रियतमसे सुख पानेका उपाय
 विचार और ऐसा उपाय विचार, जिससे उपायसे हे सुन्दरी !
 तू कापको सिद्ध करकेही लांटे ॥ ७७ ॥ बुद्धिमान् पुरुष उस
 मित्रकी प्रशंसा करते हैं, जो समय पर मित्रता दिखावे हे
 सुश्रोणि ! मैं कामार्त होरही हूँ तू मेरे प्राण वचा ७८ हे विशा-
 लान्ति ! यदि तू मेरे देवताकी समान स्वामीको नहीं लावेगी तो
 हे शुभे ! मैं अपने प्राणोंको छोड़ दूँगी ॥ ७९ ॥ ऊपाके वचन
 को सुनकर चित्रलेखाने कहा, कि-हे शुचिस्मिते हे कन्याणि !
 तू मेरे वचनको सुन ॥ ८० ॥ हे देवि ! जिस प्रकार वाणासुर
 की नगरीकी चारों ओर से रक्षाकी जाती है, हे भीरु ! इसी
 प्रकार द्वारका भी रक्षा होती है, देवता भी उसको धरित नहीं
 कर सकते ॥ ८१ ॥ वह पत्थरोंके परकोटोंसे ढक रही है, उसके
 द्वारकी वृष्णि कुमार और द्वारकावासी रक्षा करते रहते हैं ८२
 वह समुद्रकी परिखा वाली है, और विश्वकर्माकी बनाई हुई है

शासनात् ॥ ८३ ॥ शैलमाकारपरिखा दुर्गमार्गपवेशिनी । सप्त-
माकाररनिता पर्वतैर्गर्तुपण्डितैः ॥ ८४ ॥ न च शक्यमविज्ञातैः
पत्रेण्डु द्वारकापुरीम् । आत्मानं मां च रक्षस्व पितरं च विशेषतः
उपोवाच । तव योगप्रभावेण शक्यं तत्र पवेशनम् । किं मे बहु-
निलापेन श्रूयतां सखि कारणम् ॥ ८६ ॥ अनिरुद्धस्य वर्दनं पूर्ण-
चन्द्रसमप्रभम् । गद्यहं तन्न पश्यासि यास्यामि यमसादनम् ८७
दूतपासाद्य कार्याणां सिद्धिर्भवति भामिनि । तस्माद्दौत्येन मे गच्छ
जीर्तो मां यदीच्छसि ॥ ८८ ॥ यदि त्वं मे विजानासि सख्यं
प्रेम्णा च भाषितम् । क्षिप्रमानय मे कान्तं तनास्मि शरणं गता
जीविनस्य हि सन्देहः क्षयं चैव कुलस्य च । कामार्ता हि न
पश्यन्ति कामिन्यो मदविकल्पाः ॥ ९० ॥ प्रयत्ने युज्यते कार्ये-

और पद्मनाभ विष्णुकी आज्ञासे घोर पुरुष उसकी रक्षा करते हैं
उसका परकोटा पर्वतका है और उसकी खाई भी पत्थरकी बनी
हुई है और दुर्ग (कठिन) मार्गसे उसमें घुसा जा सकता है और
धातुमण्डित पर्वतोंके सात परकोटोंसे वह रची हुई है ॥ ८४ ॥
अज्ञान पुरुष द्वारकामें नहीं घुस सकते अतः तू अपनेको और
मुझे बचा विशेष कर अपने पिताकी रक्षा कर ॥ ८५ ॥ उपाने
कहा, कि-तू योगके प्रभावसे तहाँ घुस सकती है, हे सखि !
मेरे बहुत बिलाप करनेसे क्या, हे सखि ! तू बातको सुन ८६
यदि मैं पूर्ण चन्द्रमाकी समान प्रभावसे अनिरुद्धके मुखको नहीं
देखूँगी तो यमराजके घरको चली जाऊँगी ॥ ८७ ॥ हे भामिनी !
दूतोंको पानेसे कामकी सिद्धि होजाती है इस लिए यदि तू मुझे
जीवित देखना चाहती है तो मेरी दूती बनकर जा ॥ ८८ ॥ यदि
तू मेरे प्रेमपूर्वक बोलनेको और मेरे मित्र भावको समझती हो तो
मेरे स्वामीको शीघ्र ही लिवाला मैं तेरी शरणागत हूँ ॥ ८९ ॥
जीवनका सन्देह हो वा कुलका नाश होता है। इसको मदसे बिसर

शिवति शास्त्रनिदर्शनम् ॥ ६१ ॥ त्वं च शक्ता विशालान्ति द्वार-
 कायाः प्रवेशने । संस्तुतासि मया भीरु क्रूर मे प्रियदर्शनम् ६२
 चित्रलेखावाच । सर्वथा संस्तुता तेहं वाग्भैरवमृतसोदरैः । कारिता
 च समुद्योगं प्रियैः कान्तैश्च भाषितैः ॥ ६३ ॥ एषा गच्छाम्यहं
 भीरु क्षिप्रं वै द्वारकां पुरीम् । भर्तारमानयाम्यद्य तत्र वृष्णिकुलो-
 ऽभवम् । अनिरुद्धं महाबाहुं प्रविश्य द्वारकां पुरीम् ॥६४॥ सा
 वचस्तथ्यमशिव दानवानां भयावहम् । उज्ज्वला चान्तर्हिता क्षिप्रं
 चित्रलेखा गनोजवा ॥६५॥ सखिभिः सहिता ह्येषा चिन्तयन्ती
 तु सा स्थिता । तृतीये तु मुहूर्ते सा नष्टा वाणपुरात्तदा ॥६६॥
 सखीपिथं चिकीर्षन्ती पूजयन्ति तपोधनान् । ज्ञानेन सगन्तुयात्ता
 द्वारकां कृष्णपालिताम् ॥६७॥ कैनासशिखराकारैः प्रासादैरुप-

कामात स्त्रिये नहीं देखती हैं ६० कामका प्रयत्न करना चाहिये
 यह शास्त्रकी आज्ञा है ॥६१॥ हे विशालान्ती ! तू द्वारकामें प्रवेश
 कर सकती है हे भीरु ! मैंने तेरी स्तुति की है अतः तू मुझे मेरे
 प्रियतमका दर्शन करादे ९२ चित्रलेखाने कहा, कि-तूने अमृतकी
 सगान वाग्योंसे मेरी भलीप्रकार स्तुति की प्रिय तथा मनोहर
 भाषण करके मुझे उद्योग करनेके लिये उद्यत करदिया है ६३
 हे भीरु ! मैं द्वारकापुरीको शीघ्र ही जा रही हूँ और द्वारका-
 पुरीमें घुसकर वृष्णिकुलमें उत्पन्न हुए तेरे भर्ता महाशुभ्र अनि-
 रुद्धको शीघ्रही ले आऊँगी ॥ ६४ ॥ मनकी समान वेग वाली
 चित्रलेखा इस प्रकार दानवोंका अकञ्चाण करनेवाले भयानक
 और सच्चे वचनको कहकर शीघ्रही अन्तर्धान होगई ॥६५॥ और
 ऊपा शपनी सखियोंके साथ विचार करती हुई तहाँ ही रह
 गई तीसरे मुहूर्तमें चित्रलेखा वाणपुरसे चलीगई थी ॥ ६६ ॥
 अपनी सखीका प्रिय चाहनेवाली चित्रलेखा तपोधनोंका पूजन
 करती हुई ज्ञानभरती ही कृष्णसे पालित द्वारकापुरीमें पहुँच

शोभिताम् । ददर्श द्वारकां रम्भां दिवि तारामिव स्थिताम् । ६८ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि अनिरुद्धा-

नयार्थे चित्रलेखायाः द्वारकागमनं नामाष्टा

दशाधिकशततमोध्यायः ॥ ११८ ॥

नैशम्पायन उवाच । अथ द्वारवतीं प्राप्य स्थिता सा भवनांतिके।
प्रवृत्तिहरणार्थाय चित्रलेखा व्यचिंतयत् । १ ॥ अथ चिन्तयती
सा तु बुद्धिबुद्धयर्थनिरचयम् । अपश्यन्नारदं तत्र ध्यायन्तमुदके
मुनिम् ॥ २ ॥ तं दृष्ट्वा चित्रलेखा तु हर्षेणोत्फुल्ललोचना । उप-
सृत्याभिवाद्यथ तत्रैवाधोमुखी स्थिता ॥ ३ ॥ नारदस्त्वाशिपुं
दत्त्वा चित्रलेखापभावनीत् । किमथेमिह सम्भाषा श्रोतुमिच्छमि
तत्त्वतः ॥ ४ ॥ देवर्षिण्य तं दिव्यं नारदं लोकपूजितम् । कृता-
ञ्जलिपुट्य भूत्वा चित्रलेखा स्वयाव्रवीत् ॥ ५ ॥ भगवन् श्रूयतां
वाचयं दौत्येनाहमिहागता । अनिरुद्धं मुने नेतुं यदर्थं च शृणुष्व

गई ॥ ६७ ॥ उसने कैलासके शिखरकी समान आकारवाले
महनोंमे सुगोपित रगणीय द्वारकाके आकाशमें स्थित तारेकी
समान देखा ६८ एकसी अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ ११८ ॥

नैशम्पायनजीने कहा, कि-तदनन्तर द्वारकापुरीमें पहुँच कर
वह (कृष्णके) भवनके पास खड़ी होगई और (श्रीकृष्णके)
इस बातका समाचार देनेकी चिन्ता करने लगी । १। वह अपनी
बुद्धिसे इस बातका विचार कर रही थी उतनेमें ही उमने नारद-
मुनिके जलमें ध्यान करते हुए देखा ॥ २ ॥ उनको देख कर हर्षके
कारण चित्रलेखाके नेत्र खिल गए और वह उनके पास पहुँच
नीचेकी मुन्न करके खड़ी होगई ३ तब नारदजीने उमको आशी
र्वाद देकर पूछा, कि तू किम लिये आई है, उस बातमें मैं भली
गोति सुनना चाहता हूँ ४ उम भगव चित्रलेखाने दोनों हाथ जोड़
कर लोकपूजित देवर्षि नारदजीसे कहा, कि-५ हे मुने ! हे भग-

मे ॥ ६ ॥ नगरे शोणितपुरे वाणो नाम महासुरः । तस्य कन्या
 वरारोहा नाम्नापेति च विश्रुता ॥ ७ ॥ भगवन् साजुरक्ता च
 प्राद्युम्नि पुरुषोत्तमम् । देव्या वरविसर्गेण तस्या भर्ता विनिर्मितः
 तं च नेतुं समायाता तत्र सिद्धिं विवत्स्व मे । मया नीतेऽनिरुद्धे
 तु नगरं शोणिताह्वयम् ॥६॥ मवृत्तिः पुण्डरीकाक्षे स्वयारूपेया
 महामुने । अवश्यं भविता चैव कृष्णेन सह विग्रहः । वाणस्य
 सुगहान् सहस्रे दिव्यो हि स महासुरः १० न च शक्तोऽनिरुद्धस्तं
 युद्धं जेतुं महासुरम् । सहस्रबाहुपापातं जयेत् कृष्णो महाभुजः ११
 भगवन् सन्निकर्षे ते यदर्थमिहमागता । कथं हि पुण्डरीकाक्षो
 ज्ञापितस्तदिदं भवेत् ॥१२॥ त्वं प्रसादाच्च भगवन् न मे कृष्णाङ्ग्यं

वन् । मैं यहाँ अनिरुद्धको लेनेके लिए दूगी वन कर आई हूँ ६
 शोणितपुरमें वाण नामक एक बड़ा भारी राजस रहता है, उसकी
 वरारोहा कन्या ऊपा नामसे प्रसिद्ध है ७ हे भगवन् ! वह प्रद्युम्न-
 पुत्र पुरुषोत्तम अनिरुद्ध पर आसक्त होगई है, उगादेवीने भी
 उमको उसका स्वामी रच दिया है ८। उन अनिरुद्धको लेनेके
 लिए मैं यहाँ आई हूँ, उस कागको सिद्ध करनेका आप उपाय
 करिये जब मैं शोणितपुरमें अनिरुद्धको ले जाऊँगी ॥ ६ ॥
 हे मह मुने ! तब आप पुण्डरीकाक्ष ने इस बातको कह देना क्यों
 कि-तहाँ पर कृष्णके साथ वाणासुरका बड़ा भागी युद्ध होगा
 क्योंकि-वाणासुर बड़ा भारी असुर है १० अनिरुद्ध उस बड़े
 भारी असुरको युद्धमें नहीं जीत सकता महाभुज श्रीकृष्ण युद्ध
 में आते हुए सहस्र भुजावाले वाणासुरको युद्धमें जीतसकेंगे ११
 हे भगवन् ! मैं आपके पास जिस कारणसे आई थी वह बात यह
 थी, कि-यह बात पुण्डरीकाक्षको कैसे मालूम हो और उनका
 युद्ध किस प्रकार हो ॥१२॥ हे भगवन् ! आपके प्रसादसे मुझे
 कृष्णसे भय नहीं होसकता क्योंकि वह तत्व बातको जाननेवाले

(६६६) * महाभारत- हरिवंशपर्व २ * [ऊनविंशाधिकपाततम

भवेत् । स हि तत्त्वार्थदृष्टिस्तु अनिरुद्धः कथं हियेत् ॥ १३ ॥
क्रुद्धो हि, स महाबाहुस्त्रैलोक्यगपि निर्दहेत् । पौत्रशोकाभिसंतप्तः
शापेन स दहेत माम् ॥ १४ ॥ तत्रोपायं च भगवन् चिन्तितुं वै
त्वंमर्हसि । यथा ह्युपो लभेत् कान्तं मम चैवाभयं भवेत् ॥ १५ ॥
इत्येवमुक्तो भगवतिरित्रल्लेखां स नारदः । उवाच स शुभं वाक्यं
मा भैस्त्वमभयं शृणु ॥ १६ ॥ त्वयः नीतेऽनिरुद्धे तु कन्यावेश्म प्रवे-
शिते । यदि युद्धं भवेत्तत्र स्मर्तव्योऽहं शुचिस्मिते ॥ १७ ॥ ममैव
परमः कापो युद्धं द्रष्टुं मनोरमे । तद् दृष्ट्वा च महाप्रीतिः प्रवृत्तिश्च
हृदा भवेत् ॥ १८ ॥ गृह्यतां तामसी विद्या सर्वलोकप्रगोहिनी ।
कृतकृत्यस्तु ते देवि एष विद्यां ददाम्यहम् ॥ १९ ॥ एवमुक्ते तु
वचने नारदेन महर्षिणा । तथेति वचनं प्राह चित्रलेखा मनो-

है परन्तु अनिरुद्धका हरण किस प्रकार होसकता है ! ॥ १३ ॥
महाशुभ श्रीकृष्ण क्रोधमें भरने पर त्रिलोकीको भी भस्म कर
सकते हैं और पौत्रके शोकसे सन्तप्त होकर मुझे शाप भी देस-
कते हैं १४ हे भगवन् ! आप ऐसा उपाय विचारिये जिसप्रकार
ऊपाको तो उसका स्वामी गिलजाय और मुझे भी अभय वचन
गिलजाय १५ इसप्रकार कहने पर भगवान् नारदने चित्रलेखासे
शुभवाक्य कहा, कि-तू डर मत ! और अभय वचनको सुन १६
जब तू अनिरुद्धको लेजाएगी और कन्याके घरमें उसका प्रवेश
करादेगी उस समय यदि युद्ध खड़ा होजाय तो हे शुचिस्मिते !
तू मेरा स्मरण करना १७ हे मनोरमे ! मुझे युद्ध देखने का
पड़ा भाव लगा रहता है उसको देखकर मुझे बड़ी मसन्नता
होगी और मेरी युद्ध करानेकी प्रवृत्ति भी दृढ़ होजावेगी १८
तू सब लोकको मोहण करने वाली तामसी विद्याको द्रष्टुं कर
दे देवि ! मैं इस विद्यामें कृतकृत्य हूँ और तुम्हें यह विद्या देता
हूँ १९ महर्षि नारदके इस प्रकार वचन कहने पर मनकी समान

जवा ॥ २० ॥ अभिवाद्य महात्मानमृषीणां नारद वरम् । सा
जगामानिरुद्धस्य गृहं चैवान्तरिक्षगा ॥२१॥ ततो द्वारवतीमध्ये
कामस्य भुवनं शुभम् । तत्समीपेऽनिरुद्धस्य भवनं सा विवेश ह ।
सौवर्णवेदिकास्तम्भं रुक्मवैडूर्यतोरणम् । गान्धदापावसक्तं च
पूर्णकुम्भोपशोभितम् ॥ २३ ॥ बर्हिकण्ठनिभग्रीवं प्रासादैरेक-
सञ्चयैः । मण्डिप्रवालविस्तीर्णं देवगन्धर्वनादितम् ॥ २४ ॥ ददर्श
भवनं यत्र प्राद्यम्निरवसत् सुखम् । ततः प्रविश्य सहसा भवनं
तस्य तन्महत् ॥ २५ ॥ तत्रानिरुद्धं साऽपश्यच्चित्रलेखा वरा-
प्सराः । मध्ये परमनारीणां तारापत्तिमिबोदितम् ॥२६॥ क्रीडा-
विहारे नारीभिः सेव्यमानमितस्ततः । पियन्तं मधुगाध्वीकं श्रिया
परगया घृतम् ॥२७॥ वरासनगतंस्तत्र यथा चैडबिलंतथा । वाद्यते

वेगवाली चित्रलेखाने "तथास्तु" कहा २० और वह ऋषियोंमें
श्रेष्ठ महात्मा नारदको गणाय करके आकाशमेंको उड़कर अनि-
रुद्धके घरकी ओर चली २१ तदनन्तर वह द्वारकापुरीके मध्य
में स्थित प्रद्युम्नके शुभ भवनके समीपमेंके अनिरुद्धके भवनमें
घुस गई २२ उसने सुवर्णकी भूमि और सुवर्ण तथा वैदूर्यमणि
के तोरणवाले पुष्पोंकी गालाओंसे भरे हुए और पूर्ण कुम्भोंसे
सुशोभित २३ और एक सञ्चयके कारण अर्थात् एक उठे हुए
काष्ठ वा पाषाणके कारण मोरके कंठकी समान ग्रीवावाले मणि
और मूँगोंसे भरे हुए देवता और गन्धर्वोंसे गुञ्जारते हुए २४
भवनको देखा तहाँ पर प्रद्युम्नके पुत्र अनिरुद्ध सुखपूर्वक बैठेथे
तदनन्तर वह अप्सरा उनके उस बड़े भारी भवनमें घुसगई २५
तहाँ पर श्रेष्ठ अप्सरा चित्रलेखाने श्रेष्ठ स्त्रियोंके मध्यमें उदय हुए
चन्द्रमाकी समान शोभायमान अनिरुद्धको देखा २६। क्रीडा
विहारके समय नारियें उनकी चारों ओरसे सेवा कर रहीं थीं
वह मधुको पीरहे थे और परमशोभा सम्पन्न थे २७ कुरोरके

(६६८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * जनविंशाधिक्या ता

सपतालं च गीयते मधुरं तथा ॥२८॥ न च तस्य मनस्तत्र तमे-
वार्थमचिन्तयत् । मित्रयः सर्वगुणोपेता वृत्त्यन्ते तत्र तत्र वै ॥२९॥
न चास्य मनसस्तुष्टिं चित्रलेखा प्रपश्यति । न चाभिरमते भोगैर्न
नापि मधु सेवते ॥ ३० ॥ व्यक्तमस्य हि तत्स्वप्नो हृदये परि-
वर्तते । इति तत्रैव बुद्ध्या च निश्चिन्ता गतसाध्वसा ॥ ३१ ॥
सा हृष्टा परमस्त्रीणां मध्ये शक्रध्वजोपमम् । चिन्तयाविष्टहृदया
चित्रलेखा मनस्विनी ॥ ३२ ॥ कथं कार्यमिदं कार्यं कथं स्वस्ति
भवेदिति । सान्त्वहिता चिन्तयित्वा चित्रलेखा यशस्विनी ॥ ३३ ॥
तामस्याच्छादयागास चित्रया शुभलोचना । ततोतरिच्छादेवाशु
प्रासादोपगधिष्ठिता ॥ ३४ ॥ प्राच्युम्नि बचनं प्राह श्लक्ष्णं मधु-

श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए थे तहाँ पर सपतालसे वाजा बज रहा
था और मधुर गीत गाए जा रहे थे २८ परन्तु उसका मन तहाँ
पर नहीं था वह उस ही बातको विचार रहा था (इससे गतीत
होता है, कि-जिसप्रकार ऊपाने स्वप्न देखा इसीप्रकार अनि-
रुद्धने भी देखा था) तहाँ पर सर्वगुणसम्पन्न स्त्रियों
जहाँ तहाँ नाच रहीं थीं २९ परन्तु चित्रलेखाने अनिरुद्धके
मनमें सन्तोष नहीं पाया वह भोगोंसे आनन्द नहीं पाता था और
मधुका भी सेवन नहीं कर रहा था ३० इसलिए उस निष्पापाने
आनी बुद्धिमें निश्चय किया, कि-इसके हृदयमें वह स्वप्न फिर
ही रहा है ३१ मनस्विनी चित्रलेखाका इन्द्रध्वजकी समान अनि-
रुद्धको श्रेष्ठ स्त्रियोंके बीचमें विराजमान देखकर, मन चिन्तासे
भर गया : २ यशस्विनी चित्रलेखा उससमय तहाँ पर अन्तर्धान
होकर खड़ी हुई थी और यह कार्य किसप्रकार हो और किस
प्रकार कल्याण हो इस बातका विचार कर रही थी ३३ तदनन्तर
यह शुभलोचना अनादि परमे उतरकर महत्ता पर गड़ी होगई
और तामसी विद्यामें अनिरुद्धके अतिविक्त दमर्गोंको आन्दादिग

रया गिरा । चक्षुर्दत्त्वा तु सा तस्मै कृत्वा चात्मनिर्शनम् । ३५।
 विविक्ते सा च वै देशे , तं वावयुमिदमब्रवीत् । अपि ते कुशलं
 वीर सर्वत्र यदुनन्दन ॥ ३६ ॥ अहस्तावत् प्रदोषो वा कश्चिद्
 गच्छति ते सुखम् । षृणुष्व त्वं महाबाहो विज्ञप्तिं मे रतीसु ३७
 उपाया मम सख्यास्तु वाक्यं वक्ष्यामि तत्त्वाः । स्वप्ने तु या
 त्वया दृष्टा स्त्रीभावं चापि भाविता ॥ ३८ ॥ विभर्ति हृदये या
 त्वां उपाया प्रेषिता त्वहम् । रुदन्ती जृम्भती चैव निःश्वसन्ती
 मुहुर्मुहुः ॥ ३९ ॥ त्वं दर्शनपरा सौम्य कागिनि परितप्यते । यदि
 त्वं यास्यसे वीर धारयिष्यति जीविगम् ॥ ४० ॥ अदर्शनेन गरुणं
 तस्मा नास्त्यत्र संशयः । यद्वि नारीसहस्रन्ते हृदिस्थं , यदुनन्दन
 स्थिताः कामयमानायाः कर्तव्या हस्तधारणात्त्वं च तस्या वरो-

करमिया । ३४। तदनन्तर वह अपने देखनेके लिये अनिरुद्धको
 नेत्रदेकर गधुर बाणीमें अनिरुद्धसे कहने लगी ३५ उसने ए अन्त
 में अनिरुद्धसे यह बात कही कि-क्या तुम्हारा सर्वत्र कुशल है ३६
 क्या तुम्हारा प्रदोष और व्रत सुखपूर्वक बीता है हे मह शुभ रति-
 पुत्र अनिरुद्ध ! अब तुम मेरी बातको सुनो ३७ मैं अपनी सखी
 ऊपाके वाक्यको ठीक २ रीतिसे कही हू तुमने जिसको स्वप्न
 में देखा है और स्त्रीभाव सन्पन्न करदिया ३८ और जो तुम्हें
 अपने हृदयमें धारण किये रहती है उस ऊपाने मुझे तुम्हारे पास
 भेजा है वह कारम्बार रो रही है जर्म ई लो रही है और धार धार
 आहें खींच रही है ३९ हे सौम्य ! वह कागिनी तुम्हारे दर्शनकी
 इच्छासे संतार पारही है हे वीर ! यदि तुम यहाँ पर चलोगे तो वह
 जीती रह सकती है ४० तुम्हारा दर्शन न पानेसे उसका मरण
 होगावेगा हे यदुनन्दन ! तुम्हारे हृदयमें सैंकड़ों स्त्रियों बसती हों ४१
 तब भी चाहनेवाली स्त्रीके हाथको पकड़ना ही चाहिये उमा देवीने
 उसके मनोरथ करने पर तुम्हारे स्वामी होनेका वर देदिया था ४२

त्सर्गे दत्तो देव्या मनोरथः ॥ ४२ ॥ चित्रपट्टं मया दत्तं त्वच्चिह्नं
दृश्य जीवति । सानुक्रोशो यदुश्रेष्ठ भव तस्या मनोरथे ॥ ४३ ॥
उपा ते पतते मूर्ध्ना बधं च यदुनन्दन । श्रूयतां चोद्भवस्तस्याः
कुत्तशीलं च यादृशम् ॥ ४४ ॥ संस्थानं प्रकृतिं चास्याः पितरं
च व्रवीमि ते । वैरोचनिसुतो वीरो वाणो नाम महासुरः ॥ ४५ ॥
स राजा शोणितपुरे तस्य त्वामिच्छते पुता । त्वद्भ्रवगतचित्ता
सा त्वन्मयं चापि जीवितम् ॥ ४६ ॥ मनोरथकृतो भर्ता देव्या
दत्तो न संशयः । त्वत्सङ्गमात् सा सुश्रोणी प्राणान् धारयते
शुभा ॥ ४७ ॥ चित्रलेखवचः श्रुत्वा सोऽनिरुद्धो ब्रवीदिदम् । दृष्ट्वा
स्वप्ने मया सा हि तन्मत्तः शृणु शोभने ॥ ४८ ॥ रूपं कान्ति
मिति चैव संयोगं रुदितं तथा । एवं सर्वमहोरात्रं मुह्यामि परि-
मैने तुम्हारी तसवीर उसको देदी है तुम्हारी प्रतिमासे अङ्कित उस
चिह्नको देखकर वह जीरही है हे यदुश्रेष्ठ ! आप उसके मनोरथ
को पूर्ण करिये ४३ ऊपा तुम्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करती है
और हे यदुनन्दन ! हम भी तुम्हें प्रणाम करती हैं उसकी उत्पत्ति
कुल और शील जैसा है उसको आप सुनिये ४४ उसका स्थान
उसकी प्रकृति और उसके पिताका भी मैं आपसे वर्णन करती हूँ
विरोधनका पौत्र वीर वाण नामक बड़ावारी असुर है ४५ वह
शोणितपुरका राजा है उसकी पुत्री तुमको चाहती है उसका चित्त
तुम्हारी ओर लाग रहा है और उसका जीवन तुम्हारे ही अधीन
है ४६ उसके मनोरथ करने पर उपादेवीने उसे आपसा स्नायी
दिया था वह शुभ सुश्रोणी आपके साथ सगागम होने पर अपने
प्राणोंको धारण करके रह सकेगी ॥ ४७ ॥ चित्रलेखाके वचनको
सुनकर अनिरुद्धने उससे यह कहा कि-मैंने उसको स्वप्नमें
देखा था उस पातको हे शोभने ! तुम मुझसे सुनो ४८ मैं उसके
रूप कान्ति बुद्धि संयोग और रोगा इन सब बातोंका रात दिन

चिन्तयन् ॥ ४६ ॥ यद्यह समनुग्राहो यदि सख्यं स्वपिच्छसि ।
 नयस्व चित्रलेखे गां द्रष्टुमिच्छाम्यहं प्रियाम् ॥५०॥ कामसन्ताप-
 सन्तप्तः प्रियासद्गणकामतः । एषोञ्जलिर्मया बद्धः सत्यं स्वप्नं
 कुरुष्व मे ॥ ५१ ॥ ततस्तद्वचनं श्रुत्वा चित्रलेखा वराप्सराः ।
 सफलोद्य मम बलेशः सख्या मे यत्प्रयाचितम् ॥५२॥ वैशम्पायन
 उवाच । ईप्सितं तस्य विज्ञाय अनिरुद्धस्य भामिनी । चित्रलेखा
 ततस्तुष्टा तथेति च तमवब्रवीत् ॥५३॥ इम्ये स्त्रीगणपध्यस्थं कृत्वा
 चान्तर्हितं तदा । उत्पपात शृहीत्वा सा प्राद्युम्नि युद्धदुर्मदम् ५४
 सा तमभ्वानगागम्यं सिद्धचारणसेवितम् । सहसा शोणितपुरं
 प्रविवेश मनोजषा ॥५५॥ अदर्शनं तगानीय मायया कामरूपिणी
 विचार करता हुआ मोहमें पडा रहता हूँ ४६ यदि तुम मुझ पर
 अनुग्रह करना चाहती हो और यदि तुम मेरी मित्रता चाहती
 हो तो हे चित्रलेखे ! तुम मुझे ले चलो मैं अपनी प्रियाको देखना
 चाहता हूँ ॥५०॥ मैं प्रियाका संगग करनेकी इच्छासे कामसे संतप्त
 होरहा हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ तू मेरे स्वप्नको सच्चा कर ॥५१॥
 तदनन्तर उस बचनको सुनकर श्रेष्ठ अप्सरा चित्रलेखाने(समझा,
 कि-)मेरी सखीने मुझसे जिस बातकी प्रार्थनाकी थी उसके लिये
 मेरी परिश्रम करना सफल होगया ५२ वैशम्पायनजीने कहा, कि-
 भामिनी चित्रलेखा अनिरुद्धके अभिप्रायको जानकर सन्तुष्ट होगई
 और उसने कहा, कि-बहुत अच्छा ॥५३॥ तदनन्तर चित्रलेखा
 अपने भवनमें स्त्रियोंके बीचमें बैठे हुए युद्धदुर्मद अनिरुद्धको अन्त-
 र्धान करनेके अनन्तर उनको उठाकर उड़वली ॥५४॥ वह सिद्ध
 और चारणोंसे सेवित मार्गोंमें पहुँचकर मनके समान वेगवती होने
 से शीघ्र ही शोणितपुरमें पहुँच गई ॥ ५५ ॥ इस प्रकार इच्छा-
 अनुसार रूप धारण करनेवाली महाभागा चित्रलेखा अनिरुद्धको
 मच्छन्न रूपसे लाकर जहाँ ऊषा थी तहाँको चलदी ॥५६॥ उसने

अनिरुद्धं महाभागा यत्रोपा तत्र गच्छति ॥ ५६ ॥ उपायादर्शय-
 च्चैनं चित्राभरणभूषितम् । चित्राम्बरधरं वीरं रहस्यमरूपिणम्
 तत्रोपा निस्मिता दृष्ट्वा हर्म्यस्था सखिसन्निधौ । प्रवेशयामास च
 तं तदा सा स्वगृहं तनः ॥ ५८ ॥ प्रहर्षोत्फुल्लनयना मिरां दृष्ट्वा-
 र्थकोविदा । सा हर्म्यस्था तमर्षेण यादवं समपूजयत् ॥ ५९ ॥
 चित्रलेखा परिष्वज्य मियास्थानेष्वयोजयत् । त्वरिता कागिनी
 गाह चित्रलेखा, भयातुरा ॥ ६० ॥ सखीदं वौ कथं कार्यं गुह्यं
 कार्यविशारदे । गुह्ये कृते भवेत् स्वस्ति प्रकाशे जीवितक्षयः ६१
 इत्युक्त्वा त्वरगाणा सा गुह्यदेशे स्वलंकृता । कातेन सह संयुक्ता
 स्थिता वै भीतभीतवत् ॥ ६२ ॥ चित्रलेखाऽध्वीद्वाक्यं शृणु त्वं

ऊपाको एकान्तमें विचित्र आभूषणोंसे विभूषित और विचित्र-
 चक्षुधारी देवनाकी समान रूपात्वा वीर अनिरुद्धको दिखाया ५७
 सखीके समीपमें अपने भवनमें खड़ी हुई ऊपा अनिरुद्धको देख
 कर विस्मयमें पड़ गई और उसने अनिरुद्धको अपने घरमें घुमा
 लिया ॥ ५८ ॥ अर्धचतुर ऊपाके नेत्र अपने मियतमको देखकर
 हर्षके मारे खिल गये तदनन्तर अपने भवनमें बैठी हुई ऊपाने अर्ध
 देकर यादवकी पूजकी ॥ ५९ ॥ तदनन्तर उसने चित्रलेखासे
 आलिङ्गनकिया और उससे मिय बात कहनेके लिये कहा. उसके
 उपरान्त भयसे घबड़ाई हुई कागिनी ऊपाने त्वराके साथ चित्र-
 लेखासे कहा, कि- ॥ ६० ॥ हे काम करनेमें चतुर सखी ! इस
 बातको किस प्रकार छिपाकर रखा जाय इस बातके गुप्त रखने
 पर ही कल्याण होसकता है प्रकट होनेपर तो प्राणोंका भी नाश
 होजायगा ॥ ६१ ॥ इसप्रकार कहकर वह फुर्गसे अलंकृत होकर
 छुपे छुप स्थानमें चली गई और अपने स्वाणीके साथ मिलकर डगी
 हुईकी समान खड़ी हो गई ६२ उस समय चित्रलेखाने कहा कि-
 हे सखि ! तू मेरे निश्चय (विचार) को सुन हे सखि ! पुरुपार्थ-

निरचय सखि । कृतं पुरुषकारेण देव नाशयते सखि ॥ ६३ ॥
 यदि देव्याः मसादस्ते ह्यनुकूलो भविष्यति । अथ मायाकृतं गुह्यं
 न कश्चिज्ज्ञास्यते नरः ॥ ६४ ॥ सख्या नै एवमुक्ता सा पर्यव-
 स्थितचेतना । एवमेतदिति प्राह सानिहृद्गण्डिद वचः ॥ ६५ ॥
 दिष्ट्या स्वप्नगतश्चौरो दृश्यते सुभगः पतिः । यत्कृते तु वपं
 खिन्ना दुर्लभप्रियकान्तया ॥ ६६ ॥ कश्चित्तत्र महाबाहो कुशलं
 सर्वतो गतम् । हृदयं हि मृदु स्त्रीणां तेन पृच्छाम्यह तव ॥ ६७ ॥
 तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा उवाचाः श्लक्ष्णपर्यवत् । सोऽप्याह यदुशार्दूलः
 शुभान्तरतरं वचः ॥ ६८ ॥ हर्षविप्लुननेत्रापाः पाणिनाश्रुममृज्य
 च । प्रहस्य सस्मितं प्राह हृदयग्राहक वचः ॥ ६९ ॥ कुशलं मे
 वरारोहे सर्वत्र मितभाषिणि । त्वत्प्रसादेन मे देवि प्रियमावेद-

पूर्वक किये हुए कामको प्रारब्ध नष्ट कर डालना है ६३ यदि तेरे
 ऊपर देवीकी मसन्नता होगी तब सन तेरे अनुकूल ही रहेगा और
 इस समय मैंने माया करके जिस कार्यको छुपा दिया है उस कामको
 कोई भी गनुष्य नहीं जान सकेगा ६४ सखीके इसप्रकार कहने
 पर उसका चित्त सावधान होगया और उसने “एवमस्तु” कहकर
 अनिरुद्धसे यह बात कही, कि-॥६५॥ मेरे स्वप्नके चौर सौभाग्य
 वात् पति आज मुझे दीख रहे है यह मेरा अहोभाग्य है आपसे
 दुर्लभ मितप्रियको पानेकी इच्छासे हम खिन्न रहती थी ॥६६॥ हे
 महाशून ! आप सब गवारसे कुशल तो है स्त्रियोंका हृदय कोमल
 होता है इसलिये मैं आपसे पूछ रही हूँ । ६७॥ ऊपाके गधुरता
 और प्रयोजन भरे वचनको सुनकर यदुशार्दूल अनिरुद्ध भी
 परमशुभ अन्तर्वाला वचन कहने लगे । ६८॥ उन्होंने हँसकर
 और मुस्कराकर हर्षके कारण भरे हुए नेत्रोंवाली ऊपाके आँसुओं
 को अपने हाथसे पूँछ कर हृदयग्राही वचन कहा, कि ॥ ६९ ॥
 हे मितभाषिणी देवी ! हे वरारोहे ! तेरी कृपासे मैं कुशल पूर्वक

१००४) * महाभारत हरिनंशपर्व २ * [ऊनविंशाधिकशततम

यापि ते ॥ ७० ॥ अदृष्टपूर्वश्च गया देशोयं शुभदर्शने । निशि
 स्वप्ने यथा दृष्टः सकृत् कन्यापुरे तथा ॥ ७१ ॥ एदमेवपहं भीरु
 स्वप्नसादादिहागतः । न च तद्गुदपत्न्या नै गिध्या वाक्यं भवि-
 ष्यति ॥ ७२ ॥ देव्यास्ते प्रीतिमाज्ञाग त्वत्प्रियार्थं च भामिनि ।
 अनुपाप्तोस्मि वाद्यैव मसीद शरणं गतः ॥ ७३ ॥ इत्युक्त्वा त्वर-
 माणा सा गुह्यदेशे स्वलंकृता । कान्तेन सह संयुक्ता यिता नै
 भीतभीतवत् ॥ ७४ ॥ ततश्चोद्गाहधर्मेण गान्धर्वेण सपीयतुः ।
 अन्योन्यं रमतुस्तौ तु चक्रवाकौ यथा दिवा ॥ ७५ ॥ पतिना सा-
 निरुद्धेन मुमुदे तु वराङ्गना । कान्तेन सह संयुक्ता दिव्यवस्त्रानु-
 लेपना ॥ ७६ ॥ रममाणाऽनिरुद्धेन अग्निज्ञाता सुता तदा । तस्मि-
 न्नेव ज्ञाने प्राप्ते यद्नामृषभो हि सः ॥ ७७ ॥ दिव्यमाल्याम्बर-

हूँ अब मैं तुझसे प्रिय बात कहता हूँ, कि-७० हे शुभदर्शने ! यह
 देश मेरा पहले देखा हुआ नहीं है मैंने इसको जिसप्रकार रात्रि
 में सुपनेमें देखा था तिसीप्रकार मैं इसको एक बार कन्यापुरमें
 देखरहा हूँ ॥ ७१ ॥ हे भीरु ! इस प्रकार मैं तेरी कृपासे यहाँ पर
 आगया हूँ, रुद्रकी पत्नी उपादेवीका वाक्य गिध्या नहीं होगा ७२
 हे भामिनि ! तेरी प्रीतिको जानकर तेरा प्रिय करनेके लिये मैं
 आ गया हूँ अब तू मसन्न हो मैं तेरी शरण लेता हूँ ॥ ७३ ॥ इस
 प्रकार कहनेपर त्वरपूर्वक अलंकृत होकर गुह्यदेशमें बैठी हुई ऊपा
 अपने कान्तके साथ मिलकर भयभीतकी समान खड़ी होगई ७४
 तदनन्तर उन दोनोंने गान्धर्व विवाह करलिगा और जिसप्रकार
 दिनमें चक्रवाचकबी रहते हैं इसीप्रकार परस्पर रहकर वे रमण
 करने लगे ॥ ७५ ॥ श्रेष्ठ स्त्री ऊपा अपने पति अनिरुद्धके साथ
 आनन्द पाने लगी अपने कान्तसे मिलने पर वह दिव्य वस्त्र और
 दिव्य चन्दनको धारण करती थी ७६ वाणासुरकी पुत्री अनि-
 रुद्धके साथ रमण कर रही है इसको (कोई) नहीं जानता था

धरो दिव्यस्रगनुलेपनः । उपया सह संपुक्तो विज्ञातो वाण-
रक्षिभिः ॥ ७८ ॥ ततस्तैरचारपुरुषैर्वाणस्यावेदितं द्रुतम् । यथा
दृष्टमशेषेण कन्यायास्तदतिक्रमम् ॥ ७९ ॥ ततः किकरसैन्यं तु
व्यादिष्टं भीमकमेणा । बलेः पुत्रेण वीरेण वाणेनाभिन्नघातिना ८०
गच्छध्वं सहिताः सर्वे इत्यतामेव दुर्मतिः । येन नः कुलवारित्रं
दूषितं दूषितात्मना ॥ ८१ ॥ लंपायां धर्षितायां हि कुलं नो धर्षितं
महत् । असम्प्रदत्तां योस्माभिः स्वयंग्राह्यभर्षयत् ॥ ८२ ॥ अहो
वीर्यमहो धैर्यमहो धाष्ट्यं च दुर्मतेः । यः पुरं भवनं चेदं प्रविष्टो
नः स वालिशः ॥ ८३ ॥ एवमुक्त्वा पुनस्तां तु किकरारिचोद-
यद्भृशम् एतस्याज्ञामथो गृह्य सुसन्नद्धा विनिर्यायुः । यत्रानिरुद्धो
एक समग यादवोर्मिं श्रेष्ठ अनिरुद्ध दिव्य गाला दिव्य वस्त्र धारण
कर दिव्यहार और दिव्य चन्दनका लेपन कर ऊपाके साथ बैठा
हुआ था (इस बातको) वाणासुरके रक्षकोंने जान लिया ७८।
तदनन्तर उन दूतोंने जिसप्रकार कन्याका अतिक्रम देखा था वह
सब बात शीघ्रतापूर्वक वाणासुरसे कहदी ७९। तब शत्रुओंको
मारनेवाले, भयंकर कर्म करनेवाले बलिपुत्र वीर वाणासुरने किकरों
की सेनाको आज्ञा दी, कि—॥ ८० ॥ तुम सब इकट्ठे होकर जाओ
और जिस दूषित आत्मावालेने हमारे कुलके चरित्रको दूषित कर
दिआ है उस दुर्मतिके पारडालो ८१ हमारे न देने पर भी ऊपा
को अपने आप पकड़कर धर्षित कर दिया इसप्रकार ऊपाके धर्षित
होने पर हमारे बड़ेभारी कुलको भी उसने धर्षित करदिया है ८२
जो हमारे नगर और भवनमें घुम आया उस वालिश दुर्मतिके वीर्य
धैर्य और धृष्टता पर आश्चर्य होता है ८३ इस प्रकार कहनेके उप-
रान्त उसने अपने सेवकोंको (तहाँ जानेकी) बहुत मेरणाकी,
सैनिक वाणासुरकी आज्ञाको ग्रहण करके तयार होकर चलने
लगे, वे महाबली राजस जहाँ मद्युम्नपुत्र था, तहाँको चलादिये ८४

(१००६) * महाभारत-हरिबंधपर्व २ * [ऊनविंशाधिकशततम

ह्यभवत्तत्रागच्छन्महाबलाः ॥८४॥ नानाशस्त्रोद्यतकरा नानारूपा
भयंकराः । दानवाः समभिक्रुद्धाः प्राद्युम्निवधकान्तिणः ॥८५॥
करोद् तद्वलं दृष्ट्वा वाष्पेणावृतलोचना । प्राद्युम्निवधभीता सा
वाणपुत्री यशस्विनी ॥ ८६ ॥ ततस्तु रुदती दृष्ट्वा तां सुतां मृग-
लोचनाम् । हा हा कान्तेति वेपन्तीमनिरुद्धोऽभ्यभाषत ॥ ८७ ॥
अभयं तेस्तु सुश्रोणि गामैस्त्वं हि मयि स्थिते । सम्प्राप्तो हर्षका-
लस्ते नेहास्ति भयकारणम् ॥ ८८ ॥ कुरुनोऽर्या यदि वाणस्य
भृत्यवर्गो यशस्विनि । आगच्छति न मे चिन्ता भीरु पश्याद्य
विक्रमम् ॥ ८९ ॥ तस्य सैन्यस्य निनदं श्रुत्वाभ्यागच्छतस्ततः ।
सहसैवोत्थितः श्रीमान् प्राद्युम्निः किमिति ब्रुवन् ॥ ९० ॥ अथ
सोपश्यत बलं नानापहरणोद्यतम् । स्थितं समन्ततस्तत्र परिवार्य

अनेक प्रकारके शस्त्रोंको हाथमें उठाने वाले अनेक प्रकारके भयं-
कर दानव अनिरुद्धका वध चाह कर क्रोधमें भर गए ॥ ८५ ॥
यशस्विनी वाणपुत्री उस सेनाको देख कर (अनिरुद्धके वध की
आशांका) से भयभीत होगई, उसके नेत्रोंमें आँसू भर आए और
बह रीने लगी ८६ अनिरुद्धने हा ! हा !! कान्त ! करके काँपती
मृगलोचनी वाणासुरकी पुत्रीको, रोती हुई देखकर कहा कि-८७
हे सुश्रोणि ! तू निर्भय रह, मेरे होने पर तू डर मत यह तो
तेरे आनन्द मनानेका समय है, डरनेकी कुछ बात नहीं है ॥८८॥
हे यशस्विनि ! यदि वाणासुरका सारा भृत्यदेवल भी आजायगा,
तब भी मुझे कुछ चिन्ता नहीं है, हे भीरु ! तू आज मेरे पराक्रम
को देख ॥ ८९ ॥ तदनन्तर उस आधी हुई सेनाके नादको सुन
कर सहसा श्रीमान् अनिरुद्ध “यह क्या है” कह कर उठ खड़े
हुए ॥९०॥ और उन्होंने देखा, कि अनेक प्रकारके शस्त्रोंको
उठाने हुए बड़ी भारी सेना उस घरको चारों ओरसे घेर कर
खड़ी हुई है ॥९१॥ तब तो मद्युम्नपुत्र जहाँ पर घिरी हुई सेना

गृहं महत् ॥ ६१ ॥ ततोभ्यगच्छत्स्वरितो यत्र तद्वेष्टितं बलम् ।
 क्रुद्धः स्वबलमास्थाय अदशदशनच्छदम् ॥ ६२ ॥ ततो योद्धुम-
 पोदानां बाणेषानां निशम्य तु । सा चित्रलेखास्मरत नारदं देव
 दर्शनम् ॥ ६३ ॥ ततो निमेषमात्रेण सम्प्राप्तो मुनिपुङ्गवः । स्मृतोथ
 चित्रलेखायाः पुरं शोणितसाहयम् ॥ ६४ ॥ अन्तरिक्षे स्थितस्तत्र
 सोऽनिरुद्धमथावधीत् । गा भयां स्वस्ति ते वीर पाप्तोऽस्मद्य पुरं
 तव ॥ ६५ ॥ ततश्च नारदं दृष्ट्वा सोऽपिवाद्य महाबलः । पृहृष्ट-
 मानसो भूत्वा युद्धार्थमभिवर्तत ॥ ६६ ॥ ततस्तेषां स्वनं श्रुत्वा
 सर्वेषामेव गर्जनाम् । सहसैवोत्थितः शूरस्तेनादित इव द्विपः ६७
 तमापतन्तं संप्लेष्य संदष्टीष्टं महाभुजम् । पूसादाच्चावरोहन्तं
 भयार्ता विपदुद्बुधुः ॥ ६८ ॥ अन्तःपुरद्वारगत परिधं गृह्य चातु-

खड़ी थी तहाँसे बल दिये और अपने बलसे धारण कर क्रोध
 में भर ओठको काटने लगे ॥ ६१ ॥ तब युद्ध करनेके लिये बाहर
 निकलेहुए बाणासुरके भर्तृको देखकर चित्रलेखाने भी देवताकी
 समान दर्शन वाले नारदजीका स्मरण किया ॥ ६३ ॥ चित्रलेखाके
 स्मरण करते ही निमेषमें ही मुनिपुङ्गव नारदजी शोणित नाम
 वाले नगरमें आगए ॥ ६४ ॥ और अन्तरिक्षमें खड़े हुए वह नारद
 अनिरुद्धसे कहने लगे, कि- हे वीर ! मैं तेरे नगरमें आगया हूँ
 अतः तू डर गत, तेरा कल्याण हो, ॥ ६५ ॥ महाबली अनिरुद्ध
 नारदजीको देख उनके प्रणाम कर मनमें मसन्न, हो युद्ध करने
 पर उतर पड़े ॥ ६६ ॥ उन सब गर्जने वालोंके शब्दको सुन कर
 शूर वीर अनिरुद्ध कोड़ेसे गिटने जैसे हाथी उठ बैठता है तिस
 प्रकार एक साथ उठ खड़ा हुआ था ॥ ६७ ॥ महाभुज अनिरुद्ध
 को ओठ चत्राकर भयनसे उतर कर आते देख राजस भयभीत
 हो भागने लगे ॥ ६८ ॥ अनेक प्रकारके युद्ध करनेमें चतुर अनि-
 रुद्धने उनका बध करनेके लिए महलके द्वारमें रखले हुए अतोल

(१००८) * महाभारत - हरिचंशपर्व २ * [जननिशाचिकराज

लम् । चथाय तेषां विलेपनागद्युद्विशारदः ॥ ६६ ॥ ते सद्यो
वाणवपैश्च गदाभिर्मुश्लैस्तथा । असिभिः शक्तिभिः शूनेर्नि-
जघ्नन् रणगोचरे ॥ १०० ॥ स हन्यमानो नाराचैः परिघैश्च सग-
न्ततः । दानवैः समितिकुद्रैः पूञ्चुम्निः शस्त्रकोविदैः ॥ १ ॥
नात्तुभ्यत् सर्वभूतात्मा नदन् मेघ इत्रोपगमे । आविश्य परिघं घोरं
तेषां मध्ये व्यतिष्ठत । सूर्यो दिवि चरन् मध्ये मेवानामिव सर्वशः
दण्डकृष्णाजिनधरो नारदो हृष्टमानसः । साधु ताडिषति वै तत्र
सो निरुद्धमभायत ॥ ३ ॥ ते हन्यमाना रौद्रेण परिवेषामितौ जसा
पूद्रवन्त भयात् सर्वे मेघा वातेरिता यथा ॥ ४ ॥ विद्राव्य दान
वान् वीरः परिघेण सुविक्रमः । अनिरुद्धो रणे हृष्टः सिंहनादं
ननाद च । घर्मान्ते तोयदो व्योम्नि नदन्निव महास्वनः ॥ ५ ॥

परिघको उठा कर फैंका ॥ ६६ ॥ जब अनिरुद्ध रणमें दीखने
लगा, तबसे सब बाणोंकी वर्षा गदा मूसल तलवार शक्ति और
शूलोंसे उसको मारने लगे १०० शस्त्रनतुर समितिज्जय शानव
चारों ओरसे अनिरुद्ध पर नाराच और परिघ फैंकने लगे, उन
से पिटने पर भी (समष्ट्यहंकाररूप अनिरुद्ध नाम वाला) सर्व-
भूतात्मा जुञ्च नहीं हुआ और वर्षाकालके मेघकी समान नाद
करने लगा, जैसे स्वर्गमें घूमता हुआ सूर्य मेघोंमें चारों ओर घूमता
है, इसी प्रकार वह भी भयंकर परिघको घुमाता हुआ उनमें खड़ा
होगया १०१।१०२ उस समय दण्ड और काली मृगछालाको
धान्य करनेवाले नारदजीका मन मसन्न होगया वह अनिरुद्धसे
साधु २ कह नाचनेलगे १०३ जैसे चायुके झपाटेसे मेघ तित्तर
वित्तर होजाते हैं ऐसे ही अगित तेजस्वी भयंकर परिघसे पिटते
हैत्य डर कर भागने लगे ॥ १०४ ॥ श्रेष्ठ पराक्रम वाले वीर
अनिरुद्ध परिघसे दानवोंको भगा कर मसन्न हो सिंहकी समान
गर्जने लगे, और वर्षाश्रुतमें गड़गड़ाने वाले मेघसा महाशब्द

तिष्ठन्वपिति चुक्रोश दानवान् युद्धदुर्मदान् ॥ ६ ॥ पाञ्चुमिनर्था-
 हनन्वापि सर्वान् शत्रुनिवर्हणः । तेन ते समरे सर्वे हन्यमाना
 महात्मना ॥ ७ ॥ यतो वाणस्तनो भीता यद्युर्द्वपराङ्मुखाः ।
 तनो वाणसमीपस्थाः रथसन्तो रुधिरोक्षिताः ॥ ८ ॥ न शर्म लेधिरे
 दैत्या भयविवलवन्नेवसः । मा भैष्ट मा भैष्ट इति राज्ञा ते तेन
 चोदिताः ॥ ९ ॥ प्रासमुत्सृज्य चैकस्था युष्पध्वं दानवर्षभाः ।
 तानुवाच पुनर्षाणो भयविस्रस्तलोचनान् ॥ १० ॥ किमिदं लोक-
 विख्यातं यथा उत्सृज्य दूरतः । भवन्तो यान्ति वीकलव्वं क्लीबा
 इव विचेतसः ॥ ११ ॥ कोऽयं यस्य भयनस्ता भवन्तो यान्त्य-
 नेकशः । कुलापदेशिनः सर्वे जानाद्युद्धविशारदाः ॥ १२ ॥ भव-
 द्भिर्न हि मे कार्यं युद्धसाहाय्यमद्य वै । अथवीढ्वंसतेत्येवं भत्स-
 मीपान्च नश्यत ॥ १३ ॥ अथ तान्वाग्भिरुग्रभिन्नासयन् बहुधा

करके युद्धदुर्मद दानवोंसे कहने लगे, कि-खड़े रहो २ ॥ १०६ ॥
 तदनन्तर शत्रुनिवर्हण अनिरुद्ध उनको मारने लगे, उस महात्मासे
 समरमें पिटने पर वे दैत्य युद्धमें पराङ्मुख होकर वाणासुरके
 पासको भागने लगे, और वाणासुरके पास जाकर रुधिरमें सने
 हुए होनेके कारण होंपने लगे ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ और उस राजा
 के मत डरो ! मत डरो ! कहने पर भी उन भयभीत चित्त वालों
 को शान्ति न मिली ॥ १०९ ॥ फिर वाणासुरने भयसे त्रस्त
 नेत्र ताले दानवोंसे कहा, कि तुम डरना छोड़ कर इकठे होकर
 लड़ो ॥ ११० ॥ तुम लोकप्रसिद्ध यथाके दूरसे त्याग कर मूढ़
 नपुंसकोंकी समान क्यों भागे जा रहे हो ॥ १११ ॥ जिसमें
 डर कर तुम भागे जा रहे हो वह कौन है तुम सब कुचीन हो
 और अनेक प्रकारके युद्धोंमें चतुर हो ॥ ११२ ॥ अथ आपसे मुझे
 कोई काम नहीं है मुझे तुम्हारी युद्धमें सहायता नहीं चाहिये तुम
 नष्ट हो जाओ और मेरे सामनेसे हट जाओ ॥ ११३ ॥ इस प्रकार

(१०१०) * महाभारत-हरिवंशार्च २ * जनविंशाधिकराततम

वती । व्यादिदेश रणे शूरानन्गानयुगशः पुनः ॥१४॥ ममाथ-
गणभूयिष्ठं व्यादिष्टं तस्य निग्रहे । अनीकं सुपहारौद्रं नानापहर-
णोद्यमम् ॥ १५ ॥ अथान्तरिक्षे बहुया विद्युद्भिरिवान्नुदैः ।
वाणानीकैः समभ्रष्टं संदोषतोचनैः ॥१६॥ केचित् क्षितिस्थाः
प्राकोशान् गता इव समन्ततः । अन्तरिक्षे व्यराजन्त घर्मान्त इव
तोयदाः ॥ १७ ॥ तनस्तत् सुमहत्सैन्यं समेतमभवत् पुनः । तिष्ठ
तिष्ठेति च तदा वाचोऽश्रुणन्त सर्वशः ॥ १८ ॥ अनिरुद्धो रणे
वीरः स च तानभ्रवर्तन । तदारचर्यं समभ्रष्टदेहस्तु समागतः ॥
अपृथगत महावीरैर्दानवैः सह संयुगे । तेषामेव च जग्राह परिघां-
स्तोमरानपि ॥१२०॥ तैरेव च तदा युद्धे तान् जवान महाबलः ।

बहुबलवान् उनको उग्रवाणीमें तिरस्कृत करके फिर लाखों वीरों
को युद्धमें भेजने लगा ॥ १४ ॥ उसने अनिरुद्धका निग्रह करने
के लिए नानाभातिके आघुर्षोंको उठाने वाली ममथ नामके गर्जों
की, भयंकर सेना भेजी ॥ १५ ॥ जिस पॉले अन्तरिक्षमें बहुत
सी बिजलियाँ और मेघ इकट्ठे हो जाएँ इसी भाँति चमकते हुए
नेत्रों वाले वाणामुक्तके मौनिकोंसे अन्तरिक्ष भर गया ॥ १६ ॥
बहुतमें सैनिक पृथ्वी पर खड़े होकर हाथीकी समान विघाड़ने
लगे और बहुतमें सैनिक ग्रीष्मशुके अन्तमें आकाशमें खड़े हुए
मेघोंकी समान आकाशमें खड़े होकर शोभा पाने लगे ॥ १७ ॥
इसप्रकार चड़ीभारी सेना फिर इकट्ठी होगई और खड़ा रहो
गइ नान चारों तरफसे मुनाई आने लगी १८ वीर अनिरुद्ध भी
रणमें उनके ऊपर चढ़ा, यह आश्चर्यहीवान् भी कि-बहु अकेला
होनेपर भी उनके ऊपर चढ़ गया यः १९। अनिरुद्ध महाबली
दानवोंसे युद्धमें लड़ने लगा और उनके परिघ और तोमरोंको
झीनने लगा । २० और उनमें ही उनको मारने लगा तदनन्तर
उसने परिघतो फेंका फिर-उस परिघतो पकड़ कर शत्रुनिर्बहण

पुनः परिघमुत्सृज्य प्रगृह्य रणभूर्धुनि ॥ २१ ॥ स तेन विचरन्
 मार्गनिकः, शत्रुनिवर्हणः । भ्रान्तमुद्धान्तमाविद्धपाप्लुतं विप्लुतं
 प्लुतम् ॥ २२ ॥ इति मकारान् द्वात्रिंशद्विचरन् अभ्यदृश्यत । एकं
 सहस्रशरवान ददृशु रणभूर्धुनि ॥ २३ ॥ क्रीडन्तं बहुना युद्धे
 व्यादिनास्यमिवान्तकम् । ततसोनाभिसन्तप्ता रुषिरीघ्रपरिप्लुताः
 पुनर्भगनाः प्रादवन्त यत्र चाणो व्यवस्थितः । गनवाजिरथीघैस्ते
 चोक्षमानाः समन्ततः ॥ २४ ॥ कृत्वा चार्तस्वरं घोरं दिशो जग्मु-
 र्दतीजसः । एकैरस्योपरि तदा तेन्येन्यं भयपीडिताः ॥ २५ ॥
 बभन्तः शोणितं जग्मुर्विपादद्विमुखा रणे । न बभूव पुरा देवघु-
 ध्यतां तादृशं भयम् ॥ २७ ॥ यादृशं युध्यमानोनापनिरुद्धेन
 संप्रभुगे । केचिद्गन्तो रुषिरं ह्यपतन् वसुधातले ॥ २८ ॥ दानवा

अनिरुद्ध पर्वतरे दिखलाने लगा वह अकेला था तब भी भ्रांत
 उद्गात आनिरुद्ध आप्लुत विप्लुत और प्लुत इममकार बचीस
 पैंतरोंको दिखाता हुआ रणभूमिमें विचरने लगा दैत्य रणके
 मुहाने पर खड़ेहुए अनिरुद्धको सहस्रों अनिरुद्धोंके रूपमें विच-
 रते हुए देखने थे ॥ २१ ॥ २२ ॥ रणमें अनेक प्रकारसे क्रीड़ा करते हुए
 अनिरुद्धको वह मुझ फाड़ने वाले कालकी समान मानने लगे,
 तदनन्तर उससे संतुष्ट हुए और रुषिरसे न्दाते हुए राक्षस जहाँ
 बाणासुर खड़ा था वहाँ भागगये उनके हाथी घोड़े और रथ उन
 को लेकर चारों ओर भागने लगे ॥ २४ ॥ २५ ॥ जिनका ओज
 नष्ट होगया था ऐसे राक्षस भयावना आर्तस्वर करके दिशाओंमें
 को भागने लगे और भयपीडित, होनेके कारण दूसरोंपर गिरने
 लगे २६ वह खून ओरने पर विपादके कारण रणसे विमुक्त होने
 लगे अनिरुद्धसे युद्ध, करतेहुए दानवोंको जै ॥ भय लगा था
 तैसा भय तो उन्हें देवताओंसे रण करने पर भी नहीं लगा था
 हाथमें गदा और शूलको मारण करते बाले पर्वतके शिखरकी

(१०१२) * महाभारत हरिवंशपर्व २ * जनविंशाधिकशततम

गिरिशृङ्गाभा गदाशुलासिपाणयः । ते वाणमुत्सृज्य रणे जग्मु-
र्भयसमाकुलाः ॥२६॥ विशालमाकाशतलं दानवा निर्जितास्तदा
निःशेषभग्ना महतीं दृष्ट्वा तां वाहिनीं नदा १३० वाणः क्रोधात्
प्रजेष्यात्स समिद्धौग्निरिवाध्वरे । अन्तरिक्षचरो भूत्वा साधुवादी
समन्ततः ॥ ३१ ॥ नारदो नृत्यति प्रीतो ह्यनिरुद्धस्य संयुगे ।
एनस्मिन्नन्तरे चैव वाणः परमकोपनः ॥३२॥ कुम्भाण्डसंगृहीतं
तु रथमास्थाय वीर्यवान् । ययौ यत्रानिरुद्धो वै उद्यतासी रथे
स्थितः ॥ ३३ ॥ पट्टिशासिगदाशुलमुद्यम्य च परश्वधान् । ययौ
वाहुसहस्रेण शक्रो ध्वजशतैरिव ॥ ३४ ॥ वद्धगोधांगुलित्रैश्च
वाहुभिः स महाभुजः । नानामहरणोपेतः शुशुभे दानवोत्तमः ३५
सिंहनादं नदन् क्रुद्धो विस्फारितमहाधनुः । अब्रवीत्तिष्ठ तिष्ठेति
समान आभा वाले दानव रक्त ओकर भूमिमें गिरने लगे, भयसे
घबड़ाए हुए और हारे हुए दानव रणमें वाणासुरको (अकेला)
छोड़कर बड़ेभारी आकाशतलमेंको भागगये, बड़ीभारी सेनाको
पूर्णरीतिसे भग्नहुई देख, वाणासुर यज्ञमें मदीसहृए अग्निकी समान
क्रोधसे जलनेलगा अनिरुद्धके रणके समय नारदजी आकाशमें
घूमकर मसन्न हो साधुर कहकर नाचनेलगे, इसी समय बड़ेभारी
क्रोधमें भराहुआ वीर्यवान् वाणासुर कुंभाडके पकड़ेहुए रथमें बैठ
गया और जहाँ पर तलवार उठा कर अनिरुद्ध खड़ा था तहाँ
परारथमें बैठ कर चला ॥२७-३३॥ पट्टिश तलवार गदा और
शून तथा परशुओं का उठाकर वाणासुर चल रहा था उस समय
सँ तहों ध्वजाओंसे शोभापाने वाले इन्द्रकी समान सहस्रशुजाओं
के कारण वाणासुर शोभा पाने लगा ॥३४॥ अनेक प्रकार
के आयुधोंको धारण करने वाला टानवोत्तम महाभुज वाणासुर
गोहके चपड़ेके दस्ताते वाले हाथोंसे शोभा पाने लगा ॥ ३५ ॥
इसने क्रोधमें भग कर बड़े भारी धनुषको तान कर सिंहकी समान

क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ ३६ ॥ वचनं तस्य संश्रुत्य पाद्युम्निरपरा-
 गितः । बाणस्य वदनं संख्ये समुद्दीक्ष्य ततोऽहसत् ॥ ३७ ॥
 किंकिणीशतनिघोंषं रक्तध्वजपताकिनम् । ऋष्यवर्मवचनद्वारं
 दशनन्व महारथम् ॥ ३८ ॥ तस्य बाजिसहस्रं तु रथे युक्तं महा-
 त्पनः । पुरा देवासुरे युद्धे हिरण्यकशिपोरिव ॥ ३९ ॥ तमापतन्तं
 ददृशे दानवं यदुपुंगवः । संग्रह्यस्वतो युद्धे तेजसा चाप्यपूर्यत ॥
 अभिचर्मररो वीरः स्वस्थः सग्रामलालवः । नरसिंहो यथा पूर्व-
 मादिदैत्यवधोद्यतः ॥ ४१ ॥ आपतन्तं ददर्शाथ खड्गवर्मभरं तदा
 खड्गवर्मभरं तं तु दृष्ट्वा बाणः पदातिनम् ॥ ४२ ॥ गहर्पगतुलं
 लेभे पाद्युम्निवक्त्राज्ञया । तनुत्रेण विहीनश्च खड्पाणिरिव

गर्जना की, फिर उसने अपने नेत्रोंको क्रोधसे लालबल करके
 कहा, कि-खड़ा रह ! खड़ा रह,!! ॥३६॥ अपराजित अनिरुद्ध
 ने उसके वचनको सुन कर युद्धमें उसके मुखकी ओर देखा तो
 हैसने लगे ॥ ३७ ॥ पहिले देवासुर युद्धमें हिरण्यकशिपुके रथ
 की समान उसका रथ सैकड़ों घूघरुओंसे भग्नकार रहा था और
 उस पर रक्तवर्णकी भयही वाली ध्वजा लग रही थी ऋष्य
 (नीले रंगके वाराह मृग-नीले वारह-सिंगे) के चण्डेसे वह
 रथ मढ़ रहा था और वह महारथ दश नव्वका था महात्मा बाणा-
 सुरके ऐसे रथमें सहस्र घोड़े जुग रहे थे ॥३८॥३९॥ यदुपुङ्गव
 अनिरुद्ध उसको युद्धमें आते हुए देख कर मसन्न होने लगे और
 तेजमें भर गए ॥ ४० ॥ ढाल तलवार धारण करने वाले और
 संग्रामकी लालसा वाले स्वस्थ अनिरुद्ध आदिदैत्य (हिरण्य
 कशिपु) का वध करनेको उद्यत नरसिंहकी समान उसका वध
 करनेके लिए उद्यत होगए ॥४१॥ बाणासुरने उस ढाल तलवार
 धारीको आता हुआ देखा, बाणासुर अनिरुद्धको पैदल ही ढाल
 तलवार धारण कर खड़ा हुआ देख परम प्रसन्न हुआ, जीने

यादवः ॥ ४३ ॥ अजेय इति तं मत्वा युद्धायाभिमुखः स्थितः ।
 अनिरुद्धं,रणे वाणो जितकाशी महाबलः ॥ ४४ ॥ वाचं चोवाच
 संकुद्रो गृह्णातां हन्त्यतामिति । वाचं च व्रुवतस्तस्थ श्रुत्वा पाशु-
 स्मिराहवे ॥ ४५ ॥ वाणस्य व्रुवतः क्रोधाद्धसमानोऽभ्युदैक्षत ।
 उपां भयपरित्रस्तां रुदतीं तत्र भामिनीम् ॥ ४६ ॥ अनिरुद्धः
 महस्याय सपारवाय च तां, स्थितः । अथ वाणः शरौघाणां
 क्षुद्रकाणां समन्ततः ॥ ४७ ॥ चिक्षेय समरे क्रुद्धो ह्यनिरुद्धवधे-
 षया । अनिरुद्धस्तु निच्छेद कांचंस्तस्य पराजयम् ॥ ४८ ॥ षवर्ष
 शरजालानि क्षुद्रकाणां समन्ततः । वाणोऽनिरुद्धशिरसि कांचं-
 स्तस्य रणे वधम् ॥ ४९ ॥ ततो वाणसहस्राणि चर्मणा व्यव-
 धूय सः । वधौ प्रमुखतस्तस्य स्थितः सूर्य इवोदये ॥ १५० ॥

से दमकने वाला महाबली वाणासुर, यादव कवच रहित और
 ढालतलवार धारण कर रहा था अतः उसे, अजेय मान कर युद्ध
 करनेके लिए उसके सामने खड़ा हुआ ॥ ४२-४४ ॥ और
 क्रोधमें भर कर कहने लगा, कि-इसको पकड़ लो ! मार डालो !!
 युद्धमें इस प्रकार कहने वाले वाणासुरकी बातको सुन कर अनि-
 रुद्ध हँस कर उसकी ओर क्रोधपूर्वक देखने लगे, भयसे त्रस्त
 हुई रोती हुई भामिनी ऊपाको अनिरुद्ध हँस कर डाढ़स देने
 के बाद तहाँ आकर खड़े हुए थे उस समय समरमें क्रोधमें भरा
 हुआ वाणासुर अनिरुद्धको मारनेकी इच्छासे उस पर चारों ओर
 से क्षुद्रक नामवाले वाणोंकी वर्षा करनेलगा, तब अनिरुद्धने उस
 के पराजयकी इच्छा कर उसके वाणोंको काट डाला ४५-४८
 वाणासुर अनिरुद्धका वध करना चाहता था अतः उसने अनि-
 रुद्धके शिर पर क्षुद्रक वाणोंकी बौद्धार कर डाली ॥ ४९ ॥ उन
 सहस्रों वाणोंको प्रद्युम्नपुत्रने अपनी ढाल पर रोक लिया, वाणा-
 सुरके सामने खड़ा हुआ प्रद्युम्नपुत्र उस समय उदयकालके सूर्यकी

सोभिभूय रणे वाणमास्थितो यदुनन्दनः । सिंहप्रमुखतो दृष्ट्वा
 गजमेकं यथा वने ॥ ५१ ॥ ततो वाणः स वाणौघैर्मर्मभेदिभि-
 राशुगैः । विव्याध निशितैस्त्रीक्ष्णैः प्राद्युम्निमपराजितम् ॥५२॥
 समाहृतस्ततो वाणैः खड्गवर्मभरोऽपतत् । समापतन्तं निशितैर-
 भ्यघ्नन् सायकैस्वथा ॥५३॥ सोतिविद्धो महाबाहुर्वाणैः सन्नत-
 पर्वणिः । क्रोधेनाभिप्रजञ्जाल चिह्नीर्षुः कर्म दुष्करम् ॥ ५४ ॥
 रुधिरौघप्लुतीर्गात्रैर्वाणवर्षैः समाहितः । अभिभूयः सुसक्रुद्धो ययौ
 वाणरथं प्रति ॥५५॥ असिभिर्मुशलेः शूलैः पट्टिनीस्तोमरैस्तथा ।
 सोऽतिविद्धः शरीरैश्च प्राद्युम्निर्न व्यकम्पन ॥५६॥ आप्लुत्य
 सहसा क्रुद्धा रथेषां तस्य सोऽञ्चिनत् । जघान चारवान् खड्गेन

समान दीखना था ॥ ५० ॥ यदुनन्दन रणमें वाणासुरका तिर-
 स्कार कर इस प्रकार खड़े हो गए, जिम प्रकार वनमें सिंहके
 सामने हाथी खड़ा हो ॥५१॥ उस समय वाणासुर अपराजित
 अनिरुद्धको मर्मभेदी तीक्ष्ण बाणोंसे चींचने लगा ॥५२॥ वाणों
 से पिटने पर अनिरुद्ध ढाल और तलवारको लेकर उसके सामने
 को दौड़ा तब वाणासुर आते हुए अनिरुद्धको बाणोंसे मारने
 लगा ॥ ५३ ॥ नगी हुई गाँठों वाले बाणोंसे बहुत ही घायल
 हुआ महाभुन अनिरुद्ध दुष्कर कर्म करनेकी इच्छासे क्रोधके कारण
 तमतमा उठा ॥ ५४ ॥ रुधिरसे भीगे हुए अंगों वाला और
 जिसके बाण गुप्त रहे थे, ऐमा अनिरुद्ध ! तिरस्कार पाने पर
 वाणासुरके रथकी ओर घुमा ही चला, गया ॥ ५६ ॥ उस
 समय पशुमन-पुत्र अनिरुद्ध तलवार मूसल शूल पटे तोमर और
 बाणोंके समूहसे बहुत घायल होजाने पर भी नहीं काँपा ॥ ५६ ॥
 क्रोधमें भरे हुए अनिरुद्धने क्रुद्ध कर वाणासुरके रथकी ईपाको
 काट डाला और रणके मुहाने पर खड़े हुए वाणासुरके घोड़ोंको
 तलवारसे मार डाला ॥ ५७ ॥ उम, समय युद्ध करनेमें चतुर

(१०१६) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * जनविंशाधिकशततम

वाणस्य रणमूर्धुनि ॥५७॥ तं पुनः शरवर्षेण पट्टिशोस्त्रोपरैरति ।
चकारान्तर्हितं वाणो यु इमार्गविशारदः ५८ इतोयमिति विज्ञाय
प्रणदन्मैश्रुता गणाः । ततोऽवप्लुत्य सहसा रथपार्श्वे व्यव-
स्थितः ॥५९॥ शक्तिं वाणस्ततः क्रुद्धो घोररूपां भयानकाम् ।
जग्राह ज्वलितां घोरां घण्टामालाकुलां रणे ॥६०॥ उवलना-
दित्यसंकाशां यमदण्डोग्रदर्शनम् । ग्राहिणोत्तापसगेन महोन्कां
ज्वलितामिव ॥६१॥ तमापतन्तीं संवेद्य जीवितान्तकरीं तदा ।
सोभिप्लुत्य तदा शक्तिं जग्राह पुरुषोत्तमः ॥ ६२ ॥ निर्विभेद
तमावाणं महाशस्त्रा महाबलः । साभिन्त्रा तस्य देहं वै प्रावि-
शद्वरणीतलम् ६३ स गाढविद्धो व्यथितो ध्वजयष्टिं समाश्रितः ।
ततो मूर्च्छाभिभूतं तं कुम्भाण्डो वाक्यमवधीत् ॥ ६४ ॥ उपेतसे

वाणासुरने वाण पट्टिश और तोपरोंकी बर्षा करके अनिरुद्धको
फिर छुपा दिया ॥ ५८ ॥ उस समय प्रशुम्नपुत्रको मरा हुआ
जानकर राजस गर्जना करने लगे तब तो अनिरुद्ध एक साथ
उड़ल कर रथके पास खड़े होगए ॥ ५९ ॥ तदनन्तर क्रोधमें भरे
हुए वाणासुरने घुँघुह्रमोंसे गझी हुई भयंकररूपवाली प्रज्वलित
शक्तिको उठालिया ॥ ६० ॥ (उपाके सम्बन्धके कारण इसका
बच करने पर मेरी पुत्री चित्रा होजावेगी इसका भी विचार न
करके) असंग भावसे प्रदीप्त मूर्गकी समान, यमदण्डकी समान
भगावनी और प्रज्वलित उन्काकी समान वह शक्ति उसने
छोड़ी । ६१ ॥ जीवनका नाश करनेवाली उस शक्तिको आती
हुई देख कर पुरुषोत्तम अनिरुद्धने उड़लकर उस शक्तिको पकड़
लिया ॥ ६२ ॥ फिर महानली अनिरुद्धने उस ही शक्तिसे वाणा-
सुरको भेद डाला, वह शक्ति उसको भेदकर पृथ्वीमें घुस गई ६३
जोरसे विधनेसे व्यथाके कारण वाणासुर ध्वजाकी लकड़ीके
सहारे बैठ गया उस समय मूर्च्छा पाने हुए वाणासुरसे कुम्भाण्ड

दानवेन्द्र किमेवं शत्रुमुद्यतम् । लब्धलात्तो ह्ययं वीरो निर्विकारोऽप्य
 दृश्यते ॥ ६५ ॥ मायांमाश्रित्य युध्वस्व नायं वध्योऽन्यथा भवेत् ।
 आत्मानं मां च रक्षस्व ममादात् किमुपेक्षसे ॥ ६६ ॥ वध्यता-
 मयमद्यैव न नः सर्वान् विनाशयेत् । अन्याश्च शतशो हत्वा उषां
 नीत्वा ब्रजिष्यति ॥ ६७ ॥ कुम्भाण्डवचनैरेवं दानवेन्द्रः प्रणो-
 दितः । वार्चं रुक्तामभिक्रुद्धः शोकाच्च वदतां वरः ॥ ६८ ॥ एषो-
 ह्मस्य विदधे मृत्युं प्राणहरं रणे । आदास्याम्वहमेतं वै गरुत्मा-
 निव पन्नगम् ॥ ६९ ॥ इत्येवमुक्त्वा सरथः सध्वजः साश्वसा-
 रथिः । गन्धर्वनगराकारस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ १७० ॥ मुमोच नि-
 शितान् बाणान् ध्वनो गायोधरो वली । विज्ञायान्तर्दितं बाणं

ने यह बात कही, कि—॥६५॥ हे दानवेन्द्र ! इस उद्यत हुए शत्रु
 की तुम उपेक्षा क्यों कर रहे हो लक्ष्यको पाने पर यह वीर इस
 समय निर्विकार दीखरहा है ॥६५॥ अब आप मायाका आश्रय
 लेकर इसके साथ युद्ध करिये वैसे यह नहीं पारा जासकेगा,
 अपनी और मेरीभी रक्षा करिये प्रमादवश आप उपेक्षा कर रहे
 हैं ॥ ६६ ॥ इसके आप अभी पार डालिये नहीं तो यह हम
 सर्वोको अभी नष्ट करडालेगा और दूसरे भी सैकड़ों वीरोंको
 मारकर ऊषाको लेकर चलाजावेगा ६७ कुम्भाण्डके वचनोंसे इस
 प्रकार प्रेरित हुआ वक्ताओंमें श्रेष्ठ दानवेन्द्र क्रोधमें भरकर रुखी
 बाणियों कहने लगा ६८ लो रणमें मैं इसकी मृत्यु किये देता हूँ
 और इसके प्राणोंको हरे लेता हूँ, जैसे गरुड सर्पको दबोच लेता
 है तेसे ही मैं इसको समाप्त किये देता हूँ ६९ इस प्रकार कहकर
 रथ ध्वजा और सारथीसहित बाणासुर गन्धर्वनगरकी समान
 तहाँ ही अन्तर्धान होगया १७० मायाधारी बलवान् बाणासुर
 अन्तर्धान होकर तेज बाणोंको छोड़ने लगा अपराजित अनिहद्ध
 बाणासुरको अन्तर्धान हुआ जानकर ७१ पुरुषार्थसे युक्त होकर

(१०१८) * महाभारत-हरिवंशपर्वर * [ऊनविंशाधिकशतत

माद्युम्निरपराजितः ॥ ७१ ॥ पौरुषेण सगायुक्तः समैक्षत दिश
दश । आस्थाय तापसीं विद्यां तदा क्रुद्धो महाबलः ॥ ७२
सुभोच विशिखांस्तीक्ष्णांश्छन्नो मायाधरो बली । प्राद्युम्नि
शिखैर्वद्धः सर्पभूर्तः समन्ततः ॥ ७३ ॥ वेष्टितो बहुधा तस्य दे-
पन्नगराशिभिः । स तु वेष्टिनसर्वाङ्गो बद्धः प्राद्युम्निराहवे ॥ ७४
निष्प्रयत्नः कृतस्तस्थौ मीनाक इव पर्वतः । ज्वालावलीढवदनै
सर्पभोगैर्विचेष्टितः ॥ ७५ ॥ अभितः पर्वताकारः प्राद्युम्निरभव
द्रणे । निष्प्रयत्नगतिश्चापि सर्पवक्रमयैः शरैः ॥ ७६ ॥ न विव्यथे
स भूतात्मा सर्वतः परिचेष्टितः । ततस्तं वाग्भिरुग्राभिः संरब्धस-
मत्तर्जयत् ॥ ७७ ॥ बाणो ध्वजं सगाश्रित्य प्रोवाचामर्षितो वचः ।
कुम्भाण्ड वध्मतां शीघ्रमयं वै कुलपांसनः ॥ ७८ ॥ चारित्रं येन
मे लोके दूषितं दूषितात्मना । इत्येवमुक्ते वचने कुम्भाण्डो वाक्य-

दशों दिशाद्योको देखने लगा उधर क्रोधमें भरा हुआ मायाधारी
बलवान् दानव तापसी मायाका आश्रय लेकर तीक्ष्ण बाणोंके
छोड़ने लगा, उस समय अनिरुद्ध सर्पबाणोंसे चारों ओरसे बंध
गया ७२-७३ उसका देह सर्पराशियोंसे जकड़ गया और सारे
अंगके घिर जाने पर गद्युम्नपुत्र युद्धमें बन्दी हो गया ॥ ७४ ॥
लापलापाती हुई जीभवाले सर्पोंके शरीरोंसे चेष्टागहित हुआ अनि-
रुद्ध मीनाकपर्वतकी समान निष्प्रयत्न ही खड़ा रह गया ७५
चारों ओरसे घिरा हुआ अनिरुद्ध परणमें पर्वतकी समान दीखने
लगा सर्पके मुखवाले बाणोंसे चारों ओरसे घिरने पर प्रयत्न
और गतिरहित हुआ भूतात्मा अनिरुद्ध व्यथित नहीं हुआ
तदनन्तर द्रोणमें भरा हुआ बाणासुर उग्रावलिषोंमें उसे धमकाने
लगा ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ तदनन्तर बाणासुरने ध्वजाका आश्रय लेकर
अर्पण भरा हुआ वचन कहा; कि-इस दूषित आत्माने संसार
में मेरे चरित्रकी दूषित कर दिया है अतः हे कुम्भाण्ड । इस

गन्त्रीत् ॥७६॥ राजन् वक्ष्याम्यहं किञ्चित्तन्मे शृणु यदीच्छसि ।
 अयं विज्ञायतां कस्य कुतो वायमिहागतः ॥ १८० ॥ केन वाय-
 मिहानीतः शक्रतुष्पपराक्रमः । मयायं बहुशो राजन् दृष्टो युभयन्
 महारणे ॥ ८१ ॥ क्रीडन्निव च युद्धेषु दृश्यते देवसूनुवत् । यत्न-
 वान्सत्वसम्पन्नः सर्वशास्त्रविशारदः ॥ ८२ ॥ नायं वधकृतं
 दोषमर्हते दैत्यसत्तम । गान्धर्वेण विवाहेन कन्येयं तव संगता ८३
 अदेया ह्यर्पतिग्राहा अतश्चिन्त्य वधं कुरु । विज्ञाय च वधं वास्य
 पूर्णां चास्य करिष्यसि ॥ ८४ ॥ वधे ह्यस्य महान् दोषो रत्नणे
 सुमहान् गुणः । अयं हि पुरुषोत्कृष्टः सर्वथा मानमर्हति ॥ ८५ ॥

कुलपांसनको शीघ्रि ही मार डालो इसप्रकार आज्ञा देने पर
 कुम्भासने यह वचन कहा, कि-॥ ७८ ॥ ७९ ॥ हे राजन् !
 मैं कुछ बात कहता हूँ यदि आप सुनना चाहें तो सुनिये, (पहले)
 इस बातको जानना चाहिये, कि-यह किसका पुत्र है और कहाँ
 से यहाँ आया है ॥ १८० ॥ और इस इन्द्रकी सगान पराक्रमी
 को यहाँ पर कौन लाया है, हे राजन् ! जब यह महारणमें रण
 कर रहा था तब मैंने इसको बहुत देखा था ॥ ८१ ॥ यह रणों
 में देवपुत्रकी सगान क्रीड़ा करता हुआ दीखता था, यह
 बलवान् है सत्त्वसम्पन्न है, और सर्वशास्त्रविशारद है ॥ ८२ ॥
 हे दैत्यसत्तम ! इसलिए यह श्राणान्त दण्डका पात्र नहीं है और
 गान्धर्व विवाहके द्वारा तुम्हारी कन्याने भी इसे बर लिया
 है ॥ ८३ ॥ इसलिये न उसे और किसीको दिया जासकता है न
 आप ग्रहण कर सकते है इस लिये विचार करके इसका वध
 करिये इसके वधकी बातका विचार करके आपको इसकी पूजा
 करनी पड़ेगी ॥ ८४ ॥ इसके वध करनेमें बड़ा भारी दोष है
 और इसकी रत्ना करनेमें बड़ा भारी गुण है यह पुरुषर्षभ सर्वदा
 मानका ही पात्र है ॥ ८५ ॥ कुल चतुरता, वीर्य और सत्त्वसे

सर्वतो वेष्टिततनुर्न व्यथत्येव भोगिभिः । कुलशौण्डीर्यवीर्यैश्च
 सस्वेन च समन्वितः ॥ ८६ ॥ पश्य राजन् महावीररन्वितः
 पुरुषोत्तमः । न नो गणयते सर्वान् वधं प्राप्तोप्ययं वली ॥ ८७ ॥
 यदि मायाप्रभावेण नात्र वद्धो भवेदयम् । सर्वान् सुरगणान्
 संख्ये योधयेन्नात्र संशयः ॥ ८८ ॥ सर्वसंग्राममार्गज्ञो भवेद्वीर्या-
 धिकस्तव । शोणितौघप्लुतैर्गात्रैर्नागभोगैश्च वेष्टितः ॥ ८९ ॥
 विशिखां भ्रुकुटिं कृन्वा न चिन्तयति नः स्थितान् । ईमागवस्थां
 नीतोऽपि स्वबाहुबलमाश्रितः ॥ ९० ॥ न चिन्तयति राजंस्त्वां
 वीर्यवान् कोऽप्यसौ युवा । सहस्रबाहोः समरे द्विबाहुः समनस्थितः
 न चिन्तयति ते वीर्यमयं वीर्यमदान्वितः ॥ ९१ ॥ उचितं यदि

सम्पन्न यह पुरुष सर्पोंसे चारों ओरसे शरीरके घिरने पर भी
 व्यथित नहीं हो रहा है ८६ हे राजन् ! देखिये ! यह महावीर्य-
 वान् सर्पोंसे लिपटा हुआ बलवान् पुरुषोत्तम वधका अवसर आने
 पर भी हम सर्पोंको कुछ नहीं गिन रहा है ८७ यदि यह मायाके
 प्रभावसे नहीं बाँधता तो सब देवताओंको भी रणमें लड़ासकता
 था इसमें कुछ सन्देह नहीं है ८८ यह तुमसे वीर्यमें अधिक होगा
 और संग्रामकी सारी रीतियोंको जाननेवाला होगा क्योंकि इस
 के अंग रक्तकी धारसे सन रहे हैं और यह सर्पके शरीरोंसे
 लिपटा हुआ है ८९ इसकी ऐसी अवस्था करवाली गई है तब
 भी यह अपने भुजबलका आश्रय लेनेवाला अपनी भ्रुकुटीको टेढ़ी
 करके हग सब खड़ेहुए व्यक्तियोंको कुछ भी नहीं गिन रहा है ९०
 हे राजन् ! यह आपकी कुछ भी पर्वाह नहीं करता न जाने यह
 वीर्यवान् युवा कौन है यह दो भुजावाला समरमें आप सहस्र
 भुजावालेके सामने खड़ा हुआ है तब भी यह वीर्यमदयुक्त पुरुष
 आपके वीर्यकी पर्वाह नहीं कर रहा है ९१ हे राजन् ! उचित तो
 यह है आप इस वीर्य और बलसे युक्त पुरुषका पता लगावें, आपकी

ते राजन् द्वेषो वीर्गवत्तान्वितः । कन्या चेयं न चान्यस्य निर्या-
 त्येतेन सङ्गा ॥ ६२ ॥ यदि चेष्टनमः करिचदयं वंशे महात्मनाम् ।
 ततः पूजापथं वीरः प्रपश्यने चासुरोत्तमः ॥ ६३ ॥ रक्ष्यतामिति
 चोक्तवैव तथास्त्विति च तस्मिन्नान् । एवमुक्ते तु वचने कुम्भा-
 एडेन महात्मना ॥ ६४ ॥ तथेत्याह च कुम्भाएडं बाणः शत्रुनि-
 पृदनः । संरक्षिणस्ततो दत्त्वा अनिरुद्धस्य धीमतः ॥ ६५ ॥ ययौ
 स्वमेव भवनं वृत्तेः पुत्रो महायशाः । संयतं मायया दृष्ट्वा अनिरुद्धं
 महाव्रतम् ॥ ६६ ॥ ऋषीणां नारदः श्रेष्ठोऽब्रजद् द्वारवतीं प्रति ।
 ततो व्याकाशमार्गेण मुनिर्द्वारिणीं गतः ॥ ६७ ॥ गते ऋषीणां
 गवरे सोऽनिरुद्धो व्यचिन्तयत् । नष्टोऽयं दानवः क्रूरो युद्धमेव्य-
 त्यसंशयः ॥ ६८ ॥ स गत्वा नारदस्तत्र शंखचक्रगदाधरम् ।

कन्या इससे मिल गई है अतः वह दूसरेके साथ नहीं
 जावेगी ॥ ६२ ॥ यदि यह हमारे चाहे हुए महात्माओंके वंशमें
 होगा तो यह असुरोत्तम वीर पूजाको पावेगा अर्थात् इसकी पूजा
 की जासकेगी ६३ महात्मा कुम्भाएडके इस प्रकार बातचीत करने
 पर बाणासुर इसकी “रक्षा करो” यह कह कर और “तथास्तु”
 कह कर खड़ा हो गया ६४ तदनन्तर शत्रुनिपृदन बाणासुरने
 कुम्भाएडसे कहा, कि-बहुत अच्छा तदनन्तर बुद्धिमान् अनि-
 रुद्धके सिपाहियोंके हवाले करके ६५ बलीका महायशस्वी पुत्र
 अपने भवनको चला गया, महाबली अनिरुद्धके मायासे बंधा
 हुआ देख कर ऋषियोंमें श्रेष्ठ मुनि नारदजी आकाशमार्गसे
 द्वारकाको चल दिये ६६-६७ ऋषियोंमें श्रेष्ठ नारदजीके चले
 जाने पर प्रद्युम्नपुत्रने विचारा, कि-अब वह क्रूर दानव नष्ट ही
 होजायगा (क्योंकि-यह श्रीकृष्णके साथ) युद्ध ही करेगा ६८
 नारदजी तहाँ जाकर शंख चक्र और गदाको धारण करनेवाले
 कृष्णसे इस बातको कहेंगे इस बातमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ६६ ॥

ज्ञापयिष्यति तत्त्वेन इममर्थं न संशयः ॥ ६६ ॥ नागैर्विचेष्टितं
दृष्ट्वा उपा प्राच्युम्निमातुरा । रुरोद वाणरुद्राक्षी तामाह रुदतीं
पुनः ॥ २०० ॥ किमिदं रुद्यते भीरु गा भैस्त्वं मृगलोचने । पश्य
सुश्रोणि संप्राप्तं मत्कृते मधुमूदनम् ॥ २०१ ॥ यस्य शंखध्वनिं
श्रुत्वा बाहुशब्दं बलस्य च । दानवा नाशमेष्यन्ति गर्भाश्चासुर-
योपिताम् ॥ २ ॥ वैशम्पायन उवाच । एवमुक्त्वाऽनिरुद्धेण उपा
विश्रम्भयागता । नृशंसं पितरं चैव शोचते सा सुमध्यमा ॥ २०३ ॥
इति श्रीमहाभारते विलेपु हरिवंशो विष्णुपर्वणि वाणाऽनिरुद्ध-
युद्धे एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥

वैशम्पायन उवाच । यदा वाणपुरे वीरः सोऽनिरुद्धः सहो
पया । संनिरुद्धो नरेन्द्रेण वाणेन बलिमुत्तुना ॥ १ ॥ तदा देवी
कोटवती रत्नार्थं शरणं गतः । यद्गीतगनिरुद्धेन देव्याः स्तोत्रमिदं

ऊपा नागोंसे लिपटे हुए आतुर अनिरुद्धको देखकर रोने लगी
उसके नेत्र धँसुओंसे भर गए फिर अनिरुद्धने उस रोती हुईसे
कहा, कि-॥ २०० ॥ तू क्यों रो रही है, हे डरपोक ! हे मृग-
लोचने ! तू डर मत ! हे सुश्रोणि ! तू मेरे लिए मधुमूदनको आया
हुआ देखेगी ॥ २०१ ॥ कि-जिनके शंखकी ध्वनिको सुन कर
तथा मुनाओंके शब्दको सुन कर दानव नष्ट होजाएंगे और असुरों
की स्त्रियोंके गर्भ भी गिर जावेंगे ॥ २०२ ॥ वैशम्पायनजीने कहा,
कि-अनिरुद्धके इस प्रकार कहने पर ऊपाको कुछ विश्वास हुआ
तदनन्तर वह सुमध्यमा अपने पिताके लिए शोक करनेलगी २०३
एक सौ उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ११६ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-बलीके पुत्र राजा वाणने जब
वाणपुरमें ऊपाके साथ अनिरुद्धका कैद करलिया ॥ १ ॥ उस
समय अनिरुद्धने कोटवती देवीकी रत्ना करनेके लिए शरण ली,
उस समय अनिरुद्धने देवीका जो स्तोत्र सुना था उसका सुनो

मृग्यु ॥ २ ॥ अनन्तमक्षयं दिव्यमादिदेवं सनातनम् । नारायणं
 नमस्कृत्य मकरं जगतां प्रभुम् ॥३॥ चण्डीं कार्पायनीं देवीं मायां
 लोकनमस्कृताम् । वरदां कीर्तयिष्यामि नामभिर्हरिसंस्तुतैः । ४।
 ऋषिभिर्देवैश्चैव वाक्पुष्पैरर्चितां शुभाम् । तां देवीं सर्वदेहस्थां
 सर्वदेवनमस्कृताम् ॥ ५ ॥ अनिरुद्ध उवाच । गहेन्द्रविष्णुभगिनि
 नमस्यामि हिताय वै । मनसा भावशुद्धेन शुचिः स्तोष्ये कृतां
 जलिः ॥ ६ ॥ गौतमी कंसभयदां यशोदानन्दवर्धिनीम् । मेध्यां
 गोकुलसम्भूतां नन्दगोपस्य नन्दिनीम् ॥ ७ ॥ प्रज्ञां दत्तां शिवां
 सौम्यां दनुपुत्रविमर्दिनीम् । तां देवीं सर्वदेहस्थां सर्वभूतनमस्कृ-
 ताम् ॥ ८ ॥ दशनीं पूरणीं मायां वह्निसूर्यशशिप्रभाम् । शान्ति

में अनन्त अक्षय दिव्य सनातन आदिदेव जगत्के प्रभु श्रेष्ठ नारा-
 यणको नमस्कार करके ॥२॥३॥ और लोकोंसे नमस्कृत आर्गा
 कार्पायनी वर देनेवाली देवीके ऋषि देवता और विष्णुने जिन
 नामोंसे स्तुति की थी उन नामोंका कीर्तन करता हूँ मैं सबके
 देहमें स्थित सब देवताओंसे नमस्कृत वाणीरूपी पुष्पोंसे पूजित
 शुभ देवीके (प्रणाम करके उसके नामोंका कीर्तन करता हूँ)
 अनिरुद्धने कहा, कि-हे गहेन्द्र और विष्णुकी रहिन ! मैं हिनके
 लिए तुमको प्रणाम करता हूँ और जिसका भाव शुद्ध है ऐसे
 मनसे पवित्र होकर हाथ जोड़ कर तुम्हारी स्तुति करता हूँ ४-६
 गौतमी, कंसको भय देनेवाली, यशोदाके आनन्दको बढ़ानेवाली,
 पवित्र, गोकुलमें उत्पन्न हुई, नन्दगोपके आनन्द देनेवाली बुद्धि
 मती, चतुरा, कन्यास्वरूपा, सौम्या दनुके पुत्रोंके मसननेवाली,
 सवामाणियोंसे नमस्कृत, सबके देहमें स्थित देवोंको (मैं प्रणाम
 करता हूँ) ॥७॥ ८॥ दर्शनी, पूरणी, मायास्वरूपा, सूर्य और
 चन्द्रमाकी समान प्रभावकी शान्तिरूपा, निथला, जगनी, मोह
 में डालने वाली और सुखाने वाली, ऋषि और देवताओंसे सेव

ध्रुवां च जननीं मोहनीं शोषणीं तथा ॥ ६ ॥ सैव्यां देवैः सपि-
गणैः सर्वदेवनमस्कृताम् । कालीं कात्यायनीं देवीं भयदां भव-
नाशिनीम् ॥ १० ॥ कालरात्रिं कामगमां त्रिनेत्रां ब्रह्मचारिणीम् ।
सौदामिनीं मेघरवां वेतालीं विपुलाननाम् ॥ ११ ॥ यूथस्वाद्यां
महाभागां शकुनीं रेवतीं तथा । तिथीनां पञ्चमीं पृष्ठीं पूर्णमासीं
चतुर्दशीम् ॥ १२ ॥ सप्तविंशतिं ऋत्नाणि नद्यः सर्वा दिशो दश ।
नगरोपवनोद्यानद्वाराट्टालकवासिनीम् ॥ १३ ॥ ह्रीं श्रीं गङ्गां च
गन्धर्वीं योगिनीं योगदां सताम् । कीर्तिमाशां दिशं स्पर्शां नम-
स्वामि सरस्वतीम् ॥ १४ ॥ वेदानां मातरं चैव सावित्रीं भक्त-
वत्सलाम् । तपस्विनीं शान्तिकरीमेकानंशां सनातनीम् ॥ १५ ॥
कुटीर्यां मदिरां चण्डापिलां मलयवासिनीम् । भूतधार्त्रीं भयकरीं

नीय, सब देवताओंसे नमस्कृत भयका नाश करने वाली और
भय देने वाली देवी काली कात्यायनी, कालरात्रि, इच्छानुसार
चलने वाली; तीन नेत्र वाली, ब्रह्मचारिणी, सौदामनी, मेघकी
समान शब्द करनेवाली, वेताली और वड़े मुख वाली (देवीको
में प्रणाम करता हूँ) ६-११ कुँडमें पहली, महाभागा, शकुनी
रेवती, और तिथियोंमें पंचमी पृष्ठी; पूर्णमासी, और चतुर्दशी
(स्वरूपा देवीको में प्रणाम करता हूँ) ॥ १२ ॥ सत्ताईस नन्त्र,
सब नदियों, दशों, दिशाएँ (इनके स्वरूपवाली,) नगर, उप-
वन, उद्यान, द्वार और अट्टालिकाओंमें रहनेवाली, (देवीको में
प्रणाम करता हूँ) श्री, गंगा गंधर्वा, योगनी और सज्जनोंको योग
देनेवाली कीर्ति, आशा, दिशा, स्पर्शस्वरूपाके (में प्रणाम करता
हूँ १४ वेदोंकी माता सावित्री भक्तवत्सला, तपस्विनी, शान्ति
देनेवाली, सनातनी पूर्णा (देवीको में प्रणाम करता हूँ) १५ कुटीर
में रहने वाली, मदिरा, चण्डा, और इत्ता स्वरूपा मलय पर्वतमें
रहने वाली, भूतोंको धारण करनेवाली भय देनेवाली, कृष्णांडी,

कृष्णाण्डी कुसुमप्रियाम् ॥ १६ ॥ दारुणी गदिरावासां विन्ध्य-
कैलासवासिनीम् । वराङ्गनां सिंहरथीं बहुरूपां वृषभजाम् । १७।
दुर्लभां दुर्जयां दुर्गां निशुम्भभयदर्शिनीम् । सुरप्रियां सुरां देवीं
वज्रपाण्यनुजां शिवाम् १८ किरातीं चीरवसनां चौरसेनानमस्कृ-
ताम् । आज्यपां सोमपां सोम्यां सर्वपर्वतवासिनीम् । १९। निशुम्भ-
शुम्भभयनीं गजकुम्भोपमस्तनीम् । जननीं सिद्धसेनस्य सिद्धचा-
रणसेविताम् ॥ २० ॥ चरां कुमारमभवां पार्वतीं पर्वतात्मजाम् ।
पञ्चाशदेवकन्यानां पत्न्यो देवगणस्य च ॥ २१ ॥ कद्रुपुत्रसहस्रस्य

और कुसुमोंको प्रिय समझने वाली (देवीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १६ ॥ दारुणी, गदिरावासा, विन्ध्य और कैलासपर्वतमें रहनेवाली, सिंहोंके, रथवाली, बहुतसे रूपोंवाली वृषभकी ध्वजा धारण करनेवाली, श्रेष्ठ स्त्रीको (मैं प्रणाम करता हूँ) १७ दुर्लभा, दुर्जया, दुर्गा, और निशुम्भको भय दिखाने वाली, देवताओंकी प्यारी, इन्द्रकी व्योटी वहिन, कन्याणमयी, सुरा नामवाली (देवी को मैं प्रणाम करता हूँ) ॥ १८ ॥ किराती, चीरवसना, और और चोरोंकी सेनासे नमस्कृत, घीका पान करने वाली, सोम का पान करनेवाली, सौम्यस्वरूपा, और सब पर्वतोंमें रहनेवाली (देवीको मैं प्रणाम करता हूँ) ॥ १९ ॥ निशुम्भ और शुम्भ का मथन करने वाली, हाथीके गण्डस्थलकी समान स्तनवाली, सिद्ध और चारणोंसे सेवित, सिद्धसेनकी अर्थात् कार्तिकेयकी माताको (मैं प्रणाम करता हूँ) ॥ २० ॥ घूमनेवाली, कुमारकी उत्पत्तिस्थानीया, पार्वती, पर्वतकी पुत्री, (देवीको मैं प्रणाम करता हूँ) पचास देवकन्याओंके और देवताओंकी सब पत्निओंके (समीपमें रहने वाली देवीको मैं प्रणाम करता हूँ) २१ कद्रुके सहस्र पुत्रोंके पुत्र और पौत्रोंकी जो श्रेष्ठ स्त्रियों हैं (उनके समीप में रहनेवाली) मातृपितृस्वरूपा जगत्की माननीय तथा स्वर्गमें

पुत्रपौत्रवरस्त्रियः । माता पिता जगन्मान्या दिवि देवाप्सरोगणैः
ऋषिपत्नीगणानां च यत्नगन्धर्वयोपिताम् । विद्याधराणां नारीषु
साध्वीषु मनुजासु च ॥ २३ ॥ एवमेतासु नारीषु-सर्वभूताश्रया
हसि । नगस्कृतासि त्रैलोक्ये किंनरोद्गीतसेविते ॥२४॥ अचिंत्या
होपमेयासि यासि सासि नगोस्तु ते । एभिर्नामभिरन्यैश्च कीर्तिता
हसि गौतमि ॥२५॥ त्वत्प्रसादादविघ्नेन क्षिप्रं मुच्येय बन्धनात्
अवेत्तस्य विशालान्नि पादौ ते शरणं व्रजे ॥ २६ ॥ सर्वेषामेव
बन्धानां मोक्षणं कर्तुं गर्हसि । ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च चन्द्रसूर्याग्नि-
मारुताः ॥ २७ ॥ अश्विनौ वसवश्चैव धाता भूमिर्दशो दश ।
गरुता सह पर्जन्यो धाता भूमिर्दशो दश ॥ २८ ॥ गावो नक्षत्र-
वंशाश्च ग्रहा नद्यो हृदास्तथा । सरितः सागराश्चैव नानाविद्या-
धरोरगाः ॥२९॥ तथा नागाः सुपर्वाणो गन्धर्वाप्सरसां गणाः ।

रहनेवाले देवता और अप्सराओंकी मान्या (देवीको मैं प्रणाम
करता हूँ) २२ ऋषिपत्नियोंके और यत्न तथा गन्धर्वोंकी स्त्रियों
के (समीपमें रहनेवाली देवीको मैं प्रणाम करता हूँ) विद्याधरोंकी
नारियोंमें और साध्वी मानुषियोंमें इसप्रकार सब नरनारियोंमें
आप (वर्तमान रहनी हैं) आप सब भूतोंकी आश्रय है किन्नरों
के गीतोंसे सेवित त्रिलोकीमें आपने प्रणाम कियाजाता है २३ २४
आप अममेय हैं अचिन्त्य हैं, आप जो हैं आपको प्रणाम है,
हे गौतमि ! इन नामोंसे तथा दूसरे नामोंसे भी आपकी स्तुति
की गई है ॥ २५ ॥ आपके प्रसादसे मैं शीघ्र ही बन्धनसे छूट
जाऊँ, हे विशालान्नि ! तुम मेरी ओर देखो; मैं तुम्हारे चरणों
को पकड़ कर तुम्हारी शरण लेता हूँ ॥ २६ ॥ आप मेरे सब
बन्धनोंको छुड़ना दीजिये, देवीके नामोंका कीर्तन करनेसे मैंने
ब्रह्मा विष्णु रुद्र चन्द्रमा सूर्य अग्नि पवन अश्विनीकृपार वसु धाता
भूमि दशों दिशागें, गरुतांसहिन पर्जन्य, धाता, भूमि गौ नक्षत्र

कृत्स्नं जगदिदं प्रोक्तं देव्या नामानुकीर्तनात् ॥ ३० ॥ देव्यास्तव-
 गिदं पुण्यं यः पठेत् सुसमाहितः । सा तस्मै सप्तमे मासि वरमग्रं
 प्रयच्छति ॥ ३१ ॥ अष्टादशभुजा देवी दिव्याभरणभूषिता ।
 हारशोभितसर्वाङ्गी-मुकुटोज्ज्वलभूषणा ॥ ३२ ॥ कात्यायनी स्तूपसे-
 त्वं वरमग्रं प्रयच्छसि । अतः स्तवीमि त्वा देवी वरदे वामलोचने-
 नमोऽस्तु ते महादेवि सुमीता मे सदा भक्त । प्रयच्छ त्वं वरं ह्यायुः
 पुष्टिं चैव ज्ञानं धृतिम् ॥ ३४ ॥ बन्धनस्थो विमुच्येयं सत्यमे-
 तद्भवेदिति । वैशम्पायन उवाच । एवं स्तुता महादेवी दुर्गा दुर्गा-
 पराक्रमा ॥ ३५ ॥ सानिध्यं कल्पयासास अनिरुद्धस्य बन्धने ।
 अनिरुद्धदिनार्थीय देवी शरणव्रतसला ॥ ३६ ॥ वज्रं बाणपुरे-
 वंश ग्रह नदी सरोवर नदिये समुद्र अनेक प्रकारके विद्याधर सर्प
 नाग सुपर्वा गंधर्व और अप्सरायें, इस प्रकार मैं सब जगत् कह
 दिया है (अर्थात् देवी ही सबका उपादान-कारण है) २६-३०
 जो पुरुष सावधान होकर देवीके इस स्तोत्रको पाठ करता है,
 तो देवी-उसे सातवें मासमें श्रेष्ठ वर देती है ॥ ३१ ॥ अठारह
 भुजाओं वाली, दिव्य आभूषणोंसे विभूषित, हारसे सुशोभित
 सर्वांग बाली-मुकुटरूपी, उज्ज्वल भूषण वाली कात्यायनी तुम
 स्तुति करने पर श्रेष्ठ वर दिया करती हो, इसी लिए हे वरदे !
 हे वामलोचने ! इस लिए मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ ३२-३३
 हे महादेवि ! आपको प्रणाम हो, तुम मेरे ऊपर सर्वदा प्रसन्न
 रहो, तुम मुझे आयु-पुष्टि ज्ञान और धृतिका वर दो ॥ ३४ ॥
 हे देवि ! मैं बन्धनमें पड़ा हुआ हूँ (मैं कातरतापूर्वक) सत्य कहता
 हूँ, कि मैं मुक्त होजाऊँ । वैशम्पायनजीने कहा, कि-इस प्रकार
 स्तुति करने पर भयंकर पराक्रमवाली महादेवी दुर्गा अनिरुद्धके
 बन्धनके पास आ गई, वह देवी शरणव्रतसला थी अतः अनिरुद्धके
 पास आई और बाणपुरमें बंधे हुए वीर अनिरुद्धको (पीड़ासे)

(१०२८) * महाभारत हरिवंशपर्व २ * [विंशाधिकशततम

वीरमनिरुद्धं व्यमोक्षयत् । सान्त्वयामास तं वीरमनिरुद्धममर्षणम्
पूजयामास तां वीरः सोऽनिरुद्धः प्रतापवान् । प्रसादं दर्शयामास
अनिरुद्धस्य बन्धने ॥ ३८ ॥ नागपाशेन बद्धस्य तस्योपाहृत-
चेतसः । स्फोटयित्वा कराग्रेण पञ्जरं वज्रसन्निभम् ॥ ३९ ॥ रुद्धं
बाणपुरे वीरं सानिरुद्धमभाषत । सात्वयन्ती वचो देवी प्रसादा-
भिमुखी तदा ॥ ४० ॥ श्रीदेव्युवाच । चक्रायुधो मोक्षयिताऽनि-
रुद्ध त्वां बन्धनादाशु सहस्र कालम् । द्धित्वा स बाणस्य सहस्र-
बाहुं पुरीं निजां नेष्यति दैत्यसूदनः ॥ ४१ ॥ ततोऽनिरुद्धः
पुनरेव देवीं तुष्टाव हृष्टः शशिकान्तवक्रः । अनिरुद्ध उवाच ।
नमोस्तु ते देवि वरपदे शिवे नमोस्तु ते देवि सुरारिनाशिनि ४२
नमोस्तु ते कामचरे सदाशिवे नमोस्तु ते सर्वहितैषिणि प्रिये ।

छुड़ादिया, फिर उसने अमर्षी वीर अनिरुद्धको समझाया ३५-३७
वच प्रतापी वीर अनिरुद्धने देवीकी पूजा की, देवीने बन्धनमें पड़े
हुए अनिरुद्ध पर कृपा की थी ॥ ३८ ॥ देवीने नागपाशसे बंधे
हुए और ऊपाने जिसके हृदयको हर लिया था उस अनिरुद्ध
के वज्रकी समान शरीर पर हाथ फेर कर बाणापुरमें बन्दी पड़े
हुए अनिरुद्धसे कहा देवीने मसन्न मुख होकर अनिरुद्धको सम-
झाते हुए कहा, कि-॥ ३९ ॥ ४० ॥ हे अनिरुद्ध ! चक्रायुध
श्रीकृष्ण तुम्हें शीघ्र ही बन्धन (कैद) से छुड़ावेंगे, समयकी
मतीक्षा कर दैत्यसूदन श्रीकृष्ण बाणासुरकी सहस्र भुजाओंको
काट कर तुम्हें अपनी पुरीको ले जावेंगे ४१ तदनन्तर चन्द्रगा
की समान रमणीय मुखवाला अनिरुद्ध देवीकी फिर स्तुति करने
लगा, अनिरुद्धने कहा, कि-हे वरदान देने वाली देवि ! आप
को प्रणाम है, हे देवताओंके शत्रुओंका नाश करने वाली शिवे !
आपको प्रणाम हो ॥ ४१ ॥ हे कामचरे ! आपको नमस्कार है, हे
सदाशिवे ! हे सर्वहितैषिणि ! हे प्रिये ! आपको मेरा प्रणाम

नमोस्तु ते भयकरि विद्विषां सदा नमोस्तु ते बन्धनमोक्षकारिणि
 ब्रह्माणीन्द्राणि रुद्राणि भूतभन्धनभवे शिवे । त्राहि मां सर्वभी-
 तिभ्यो नारायणि नमोस्तु ते ॥४४॥ नमोस्तु ते जगन्नाथे प्रिये
 दान्ते महाव्रते । भक्तिप्रिये जगन्मातः शैलपुत्रि वसुन्धरे ॥ ४५ ॥
 त्राहि मां त्वं विशालान्ति नारायणि नमोऽस्तु ते । त्रायस्व सर्व-
 दुःखेभ्यो दानवानां भयंकरि ॥४६॥ रुद्रप्रिये महाभागे भक्ता-
 नागार्तिनाशिनि । नमामि शिरसा, देवीं बन्धनस्थो विमोक्षितः ४७
 वैशम्पायन उवाच । आर्यास्तवमिदं पुण्यं यः पठेत् सुसमाहितः ।
 सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति । बन्धनस्थो विमुच्येत
 सत्यं व्यासवचो यथा ॥ ४८ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि अनिरुद्धकृत
 आर्यास्तवो नाम विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१००॥

पहुँचे शत्रुओंसे द्वेष करनेवाली देवीके मैं सर्वादा प्रणाम करता हूँ
 हे बन्धनमेंसे छुड़ानेवाली !,आपको नमस्कार है ४३ हे ब्रह्माणी !
 हे इन्द्राणी ! हे भूत भविष्यत् वर्तमान रूप वाली ! हे शिवे !
 तुम सब डरोंसे मेरी रक्षा करो, हे नारायणि ! मैं तुम्है प्रणाम
 करता हूँ ॥ ४४ ॥ हे भक्तको प्रिय समझने वाली जगत्की
 माता शैलपुत्री वसुन्धरे महाव्रते चतुरे ! आपको प्रणाम है ४५
 हे विशालान्ति ! तुम मेरी रक्षा करो, हे नारायणि ! आपको
 प्रणाम है ! हे दानवोंके भय देने वाली ! सब दुःखोंसे मेरी रक्षा
 करो ॥४६॥ हे रुद्रही प्यारी, महाप्राणवती ! हे भक्तोंके दुःखों
 को नष्ट करनेवाली ! मैं आपको शिरसे प्रणाम करता हूँ, मैं
 बन्धनमें पड़ा हुआ था, आपने मुझे छुड़ा दिया है ४७ जो पुरुष
 समाहितचित्तसे इस आर्यास्तवका पाठ करता है, वह सब पापोंसे
 छूटकर विष्णुलोकको जाता है, और बन्धनमें पड़ा हुआ पुरुष
 व्यासजीके सत्य वचानुसार बन्धनसे छूट जाता है ॥ ४८ ॥

(१०३०) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [एकविंशाधिकशततम

वैशम्पायन उवाच । ततोऽनिरुद्धस्य गृहे रुरुदुः सर्वयोषितः ।
 प्रियं नाथवपश्यन्त्यः कुरुर्यं इव संघशः ॥ १ ॥ अहो धिक्किमिदं
 नाथनाथे कृष्णे व्यवस्थिते । अनाथा इव संत्रस्ता रुदिमो भय-
 पीडिताः ॥ २ ॥ यस्येन्द्रममुखा देवाः सादित्याः समररूपाः ।
 बाहुच्छायामुपाश्रित्य वसन्ति दिवि देवताः ॥ ३ ॥ तस्योत्पन्न-
 मिदं लोके भयदस्य महाभयम् । तस्याऽनिरुद्धः पौत्रस्तु वीरः
 केनापि नो हतः ॥ ४ ॥ अहो नास्ति भयं नूनं तस्य लोके सुदु-
 र्मतेः । वासुदेवस्यैवः क्रीधमुत्पादयति दुःसहम् । ५ ॥ वयादिता-
 स्यस्य यो मृत्योर्दंष्ट्राग्रे परिवर्तते । स वासुदेवं समरे मोहदभ्यु-
 दियाद्रिपुः ६ इदमेवं विधं कृत्वा विप्रियं यदुपुङ्गवे । कथं जीवन्
 विमुच्येन साक्षादपि शचीपतिः ॥ ७ ॥ हतनाथाः स्म शोच्याः स्म
 वयं नाथं विनाकृताः । विप्रयोगेन नाथस्य कृतान्तवशगाः कृताः

वैशम्पायनजीने कहा, कि-तदनन्तर अनिरुद्धके घरमें तहाँ
 की सब स्त्रियें मिय नाथ अनिरुद्धको न देख कर कुरुरीकी समान
 रोने लगीं ॥ १ ॥ कि-अहो धिक्कार है, हम नाथनाथ कृष्णके होने
 पर भी त्रस्त तथा भयपीडित होकर अनाथकी समान रो रही हैं २
 जिसकी भुजाओंकी छायाका आश्रय लेकर स्वर्गमें इन्द्र आदि
 देवता और आदित्य तथा मरुद्गण रहते हैं ॥ ३ ॥ उन भय देने
 वालेके ऊपर संसारमें यह महाभय आपड़ा है, कि-उनके पौत्र
 हमारे वीर पतिको किसीने हर लिया ४ जिस व्यक्तिने वासुदेव
 को दुःसह कोप दिलाया है उस दुर्मतिको क्या इस संसारमें भय
 नहीं लगा ॥ ५ ॥ जो मुख फाड़े हुए कालकी डाढ़के सामने घूमता
 है, वह शत्रु ही मोहवश समरमें वासुदेवके सामने जायगा । ६ ।
 यदुपुङ्गव श्रीकृष्णना ऐसा अभियोग करके साक्षात् इन्द्र भी
 किसप्रकार जीवित छूट सकता है ॥ ७ ॥ हमारे स्वामीको छीन
 लिया गया है, स्वामीसे रहित होनेके कारण हम शोक करने

इत्येवं ता वदन्त्यथ रुदन्त्यथ पुनः पुनः । नेत्रजं वारि सुमुचुर
 शिवं परमाद्गताः ६ तासां वाण्यांबुपूर्णाणि नयनानि चकाशिरै ।
 सलिलेनाप्लुतानीष पंकजानि जलागमे ॥ १० ॥ तासां पराल
 पद्मपाणि राजयन्ति शुभानि च । रुधिरैणाप्लुतानीष नयनानि
 चकाशिरै ॥ ११ ॥ तासां हर्म्यतलस्थानां पूर्णं ओसीन्गदास्वनः ।
 कुररीणामिवाकाशे रुदतीनां सहस्रशः ॥ १२ ॥ तं श्रुत्वा निनदं
 घोरमपूर्वं भयमागतम् । उत्पेतुः सहसा स्नेभ्यो गृहेभ्यः पुरुष
 र्पभाः ॥ १३ ॥ कस्मादेपोऽनिरुद्धस्य श्रूयते सुमहास्वनः । गृहे
 कृष्णाभिगुप्तानां कुतो नो भयमागतम् ॥ १४ ॥ इत्येवमृचुस्तेऽ-
 न्योन्यं स्नेहविकल्पगद्गदाः । अधर्षिता यथा सिंहा गुहाभ्य इव
 निःसृताः ॥ १५ ॥ सन्नादरेरी कृष्णस्य आहता महती तदा ।

योग्य होगई ईं हम अपने स्वामीके वियोगसे भर जावेंगी । ८। वे
 श्रेष्ठ स्त्रियें इस प्रकार अशिव वार्ते कहने लगीं, और बारम्बार
 रोकर नेत्रोंसे आँसू बहाने लगीं ६ आँसुआँकी बूँदोंसे भरे हुए
 उनके नेत्र वर्षाकालमें जलमें डूबते हुए, कमलोंकी समान चमकने
 लगे १० उनके शुभ नेत्र हंसोक रक्तमें सने हुए पंखोंकी समान
 शोभा देने लगे ॥ ११ ॥ आकाशमें रोती हुई सहस्रों कुररियोंकी
 समान अनिरुद्धभवनमें (रोवा पिटाई मचानेवाली) स्त्रियोंका बड़ा
 भारी-शब्द होनेलगा १२ उस भयंकर शब्दको सुनकर अपूर्व भय
 आया हुआ समझकर पुरुषर्षभ अपने २ घरोंसे एक साथ
 निकल आये ॥ १३ ॥ अनिरुद्धके घरमें यह बड़ा भारी स्वर क्यों
 सुनाई आरहा है, हम कृष्णसे रत्न पुरुषों पर वहाँसे भय दृष्ट
 पड़ा १४ गुहासे निकले हुए अधर्षित सिंहोंकी समान वे हर्षसे
 गद्गद् इस प्रकार आपसमें वार्ते करने लगे ॥ १५ ॥ तब कृष्ण
 की तयार होनेकी (सूचना देने वाली) बड़ा भारी भेरी बजने
 लगी, उसके शब्दसे वे सब आकर उपस्थित होगए ॥ १६ ॥ वे

(१०३२) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * एकविंशतिशततम

यस्याः क्षुब्धेन ते सर्वे सपागम्य च विष्टिताः ॥ १६ ॥ विमेन
दिति तेऽन्योन्यं समपृच्छत यादवाः । अन्योन्यस्य हि ते सर्वे
यथावृत्तमवेदयन् ॥ १७ ॥ ततस्ते वाष्पपूर्णाक्षाः क्रोधसंरक्तलो-
चनाः । निःश्वसन्तो व्यतिष्ठन्त यादवा युद्धदुर्मदाः ॥ १८ ॥
तूर्ण्यं भूतेषु सर्वेषु विपथुर्वाक्यमब्रवीत् । कृष्णं प्रहरतां श्रेष्ठं
निःश्वसन्तं मुहुर्मुहुः ॥ १९ ॥ किमिदं चिन्तयाविष्टः पुरुपेन्द्र
भवानिह । तत्र बाहुबलगाणाः स्वास्थिताः सर्वयादवाः ॥२०॥
भवन्तमाश्रिताः कृष्ण संविभक्ताश्च सर्वशः । तथैव बलवाञ्छ
कस्त्वयपावेश्य जयाजयौ ॥ २१ ॥ सुखं स्वपति निःशंकः कथं
त्वं चिन्तयान्वितः । शोकसागरगक्षोभ्यं सर्वे ते ज्ञातयो गताः ॥
तन्गज्जमानानेकस्त्वं समुद्र महाभुज । किमे। चिन्तयाविष्टो

यादव यह क्या बात है, इस बातको आपसमें चुभने लगे और
जिस प्रकार वात चीत हुई थी, वह सब बात आपसमें कहने
लगे ॥ १७ ॥ उस समय उनके नेत्र आँसुओंसे भर गए और
क्रोधसे लाल २ हो गए और वो युद्धदुर्मद यादव साँस छोड़ने
लगे ॥ १८ ॥ सबके चुप होने पर बारबार साँस छोड़ते हुए
महार करने वालोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णसे विपथुने यह बात कही,
कि-१९ हे पुरुपेन्द्र ! आप इसप्रकार चिन्तामें क्यों पड़े हुए हैं,
आपके भुजबल पर जीवित रहने वाले सब यादव यहाँ पर बैठे
हुए हैं ॥२०॥ हे कृष्ण ! हम सब विभक्त होने पर भी आपका
ही आश्रय रखते हैं, इसी प्रकार बलवान् इन्द्र भी आप पर ही
रूप और पराजयको रख कर ॥ २१ ॥ स्वर्गमें निःशंक होकर
साता रहता है फिर आप चिन्तामें क्यों पड़े हुए हैं, इससे आप
की जातिके सब पुरुष अज्ञोभ्य शोकसागरमें पड़ गए हैं ॥२२॥
हे महाभुज ! उन दृक्ने दुर्योका आप उद्धार करिये आप कुछ
भी न सोचकर हम प्रकार चिन्तामें क्यों पड़े हुए हैं ॥२३॥ हे

न किञ्चिदपि भाषसे ॥२३॥ चिन्तां कर्तुं वृथा देव न त्वमर्हसि
 माभव । इत्येषमुक्तः कृष्णस्तु निःश्वस्य सुचिरं बहु ॥ २४ ॥
 प्राद वाक्यं स वाक्यज्ञो बृहस्पतिरिव स्वयम् । श्रीकृष्ण उवाच ।
 विप्रो , चिन्तयाविष्टो योगत्कार्यमचिन्तयम् ॥ २५ ॥ विचिन्त-
 यन्त्वहं चास्य कार्यस्य न लभे गतिम् । तथाहं भवताप्युक्तो नो-
 पारं विद्धे करञ्चित् ॥ २६ ॥ दाशार्हणमध्येहं वदाम्यर्थवर्ती
 गिरम् । शृणुध्वं यादवाः सर्वे यथा चिन्तान्विनो ह्यहम् ॥ २७ ॥
 अनिरुद्धे हते वीरे पृथिव्यां सर्वपाणिवाः । अशक्ताः इति मंस्यन्ते
 सर्वानस्मान् सवान्धवान् ॥ २८ ॥ आहुंकरचैव नो राजा हतः
 शाल्वेन वी पुरा ॥ मत्पानीतः स चास्मागिर्युद्धं कृत्वा मुदारु-
 णम् ॥ २९ ॥ मद्युम्नश्चापि नो बालः शम्बरण हतो ह्यभूत् ।
 स तं निहत्य समरे प्राप्नो रुक्मिणिनन्दनः ॥३०॥ इदं तु सुमहत्

माभव ! हे देव ! आपका व्यर्थ ही चिन्ता करना उचित नहीं है
 इस प्रकार कहने पर श्रीकृष्णने चिरकाल तक साँस खैचा
 फिर वाक्यको जानने वाले बृहस्पतिकी समान कृष्णने वाक्य
 कहा ॥२४॥२५॥ श्रीकृष्णने कहा, कि-हे विप्रयो ! मैं चिन्तामें
 पड़ कर इस बातको विचार रहा हूँ परन्तु विचारने पर भी मुझ
 इस बातका कुछ पता नहीं चलता, यही बात आपने कही, अतः
 कुछ उत्तर न दे सका ॥ २६ ॥ मैं दाशार्हणके मध्यमें मयोजन
 भरी बात कहना हूँ, हे सब यादवों ! मैं जिस लिए चिन्तामें
 पड़ा हूँ, उस बातको सुनिये ॥ २७ ॥ वीर अनिरुद्धके हरणसे
 पृथ्वीके सब राजे इमैं और हमारे वान्धवोंको भी असमर्थ सम-
 भूंगे ॥ २८ ॥ हमारे राजा आहुकको भी पहिले शाल्व हरकर
 ले गया था, हमने दारुण युद्ध करके उनको छुड़ा लिया था २९
 और हमारे बालक मद्युम्नको भी शम्बरने हर लिया था, परन्तु
 वह रुक्मिणीनन्दन समरमें उसकी मार कर हमारे पास (फिर)

कष्टं प्राद्युम्निः क्व प्रदासितः । नैवं विधमह दोषं न स्वरे मनु-
जर्षभाः ॥३१॥ भस्मना गुण्ठितः पादो येन मे मूर्ध्नि पातितः ।
तस्याहं सानुबन्धस्य हरिष्ये जीषितं रणे ॥ ३२ ॥ इत्येवमुक्ते
कृष्णेन सात्यकिर्वाक्यमब्रवीत् । चाराः कृष्ण मणीयंतागनिरु-
द्धस्य मार्गणे । सपर्वतवनेऽघेशां मार्गंतु वसुधामिमाम् ॥ ३३ ॥
आहुकं माह कृष्णस्तु स्मितं कृत्वा वचस्तदा । आभ्यन्तराश्च
वाह्याश्च व्यादिश्यंतां चरा नृप ॥ ३४ ॥ वैशम्पायन उवाच ।
केशवस्य वचः श्रुत्वा आहुकस्त्वरितोऽब्रवीत् । अन्वेषणेऽनिरु-
द्धस्य स चारान् दिष्ट्वास्तदा ॥ ३५ ॥ ततश्चारास्तु व्यादिष्टाः
पार्थिवेन यशस्विना । इया रथाश्च व्यादिष्टाः पार्थिवेन महा-
त्मना । अभ्यन्तरं च मार्गन्त्वं वाह्यतश्च समन्ततः ॥ ३६ ॥ वेणु-

आ गया था ॥ ३० ॥ अनिरुद्धको कहाँ वसा दिया गया यह
तो बड़े कष्टकी बात है हे सज्जन मनुष्यों ! मैं तो ऐसे दोषका
स्मरण भी नहीं कर सकता ॥ ३१ ॥ जिसने यह धूलभरा पाँव
मेरे ऊपर रखा है मैं उसके अनुयायियों तकके जीवनको रणमें हर
लूँगा ॥ ३२ ॥ श्रीकृष्णके इन प्रकार कहने पर सात्यकिने यह
बात कही, कि—हे कृष्ण ! अनिरुद्धकी खोज करनेके लिए दूर्तों
को भोजना चाहिये वे पर्वत और वन सहित सारी पृथ्वीको खोजें
उस समय राजा उग्रसेनसे श्रीकृष्णने मुस्कुराकर कहा, कि—हे
राजन् ! अथ मकट और गुप्त दूर्तोंको भोजना चाहिये ॥ ३३ ॥ ३४ ॥
वैशम्पायनजीने कहा, कि—केशवकी बातको सुन कर उग्रसेनने
त्तराके साथ (बहुत अच्छा) कटा, तदनन्तर वह अनिरुद्धको
ढूँढ़नेके लिए दूर्तोंकी आज्ञा देने लगा ॥ ३५ ॥ यशस्वी राजाने
दूर्तोंकी आज्ञा दी थीर उस महात्मा राजाने घुड़सवार और रथ-
सवारोंको भी आज्ञा दी, कि—तुम भीतर बाहर चारों ओर खोज
करो ॥ ३६ ॥ तुम दूर्तोंके साथ चोड़ों पर सवार हो लनाओगे

पन्तं लताविष्टं तथा रैवतकं गिरिम् । ऋक्षपन्तं गिरिं चैव मार्गध्वं
 त्वरिता हर्योः ॥ ३७ ॥ एकैकं तत्र चोद्यानं मार्गध्वं काननानि
 च । यातव्यं चापि निःशंकमुद्यानानि समन्ततः ॥ ३८ ॥ दयानां
 च सहस्राणि रथानां चाप्यनेकशः । आरुह्य त्वरिता सर्वे मार्गध्वं
 यदुनन्दनम् ॥ ३९ ॥ सेनापतिरनाघृष्टिरिदं वननगमनीत् । कृष्ण-
 पविलाष्टकर्पाणश्च्युतं भीतभीतगत् ॥ ४० ॥ शृणु कृष्ण वनो
 पल्लं रोचते यदि ते प्रभो । चिरात् प्रभृति मे वक्तुं भवतां जायते
 पतिः ॥ ४१ ॥ असिलोमा पुलोमा च निम्बुन्दनरको हता । सौभः
 शान्त्वश्च निहतो मैन्दो द्विविद एव च ॥ ४२ ॥ इयग्रीवश्च सुम-
 हान् सानुवन्धस्त्वया हतः । तादृशे विग्रहे वृत्ते देवहेतोः सुदारुण्ये
 सर्वाण्येनानि कर्पाणि निःशोपाणि रणे रणे । कृतवानसि गोविन्द

धिये हुए वेणुमान् वन रैवतपर्वत और ऋक्षवान् पर्वत पर भी
 दूढ़ो ॥ ३७ ॥ तहाँ पर तुम एक २ बगीचेको और एक २ वन
 को दूढ़ना और चारों ओरके बगीचोंमें निःशंकः हो कर जाना
 तुम सहस्रों घोड़ों पर और बहुतसे रथों पर चढ़ कर फुर्ताके साथ
 यदुनन्दनको दूढ़ो ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ सेनापति अनाघृष्टि सरलता
 से कर्म करने वाले अच्युत श्रीकृष्णसे डरता २ यह कहने लगा,
 ति-हे प्रभो ! हे कृष्ण ! यदि आपसे अच्छी लगे तो मेरी बात
 सुनिये मैं बहुत समयसे उस बातके कहनेका विचार कर रहा
 था ॥ ४० ॥ ४१ ॥ आपने असिलोमा, पुलोमा और निम्बुन्द तथा
 नरकको मार डाला था, सौभदेशके स्वामी राजा शान्त्वको भी
 आपने मार डाला था तथा मैन्द और द्विविदको मार डाला था
 आपने देवताओंके निमित्त दारुण युद्ध होने पर अनुबंध सहित
 बड़े भारी रान्तस हग्रीवको मार डाला था ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ आप
 ने रणमें इन सब कर्पोंको पूर्ण रीतिसे किया है हे गोविन्द ! उस
 समय आपका कोई पाठिणग्राह भी नहीं था ॥ ४४ ॥ हे कृष्ण !

(१०३६) * महाभारत-हरिचंशपर्व २ * [एकविंशधिकशततम

पार्ष्णिग्राहश्च नास्ति ते ॥४४॥ इदं कर्म त्वया कृष्ण सानुबन्धं
 गहत् कृतम् । पारिजातस्य हरयो गत् कृतं कर्म दुष्करम् ॥४५॥
 तत्र शक्रस्त्वया कृष्ण ऐरावतशिरोगमः । निर्जितो बाहुवीर्येण
 त्वया युद्धविशारदः ॥ ४६ ॥ तेन वैरं त्वया सार्धं कर्तव्यं नात्र
 संशयः । वीरानुबन्धश्च महांस्तेन कार्गस्त्वया सह ॥४७॥ तत्रा-
 निरुद्धहरणं कृतं मघवता स्वयम् । न ह्यन्यस्य भवेच्छक्तिर्वैरनि-
 र्यातनं मति ॥४८॥ इत्येवमुक्ते वचने कृष्णो नाग इव श्वसन् ।
 उवाच वचनं धीमाननाधृष्टिं महाबलम् ॥ ४९ ॥ सेनानीस्तात
 मा पैत्रं न देवाः क्षुद्रकर्षिणः । नाकृतज्ञा न च वलीया नाबलिता
 न बालिशाः ॥ ५० ॥ देवतार्थं च मे यत्नो महान् दानवसंज्ञये ।
 तेषां मियार्थं च रणे हन्मि दृप्तान् महाबलान् ॥५१॥ तत्परस्तन्-

तुमने यह भी बड़ा भारी कर्म किया था, जो परिजातके हरणमें
 दुष्कर कर्म किया ॥४५॥ हे कृष्ण ! तहाँ पर तुमने अपने भुज-
 वीर्यसे ऐरावतके शिर पर बैठे हुए युद्धविशारद इन्द्रको जीत
 लिया था ॥ ४६ ॥ इस लिए वह आपसे अवश्य ही वैर करेगा
 इसमें कुछ सन्देह नहीं है और आपके साथ उसको बड़े भारी
 धरका कार्य करना चाहिये ॥४७॥ इस लिए अपने आप इन्द्र
 ने ही अनिरुद्धका हरण किया है, नौरका बदला लेनेकी और
 किसीकी शक्ति नहीं है इस प्रकार वचन कहने पर बुद्धिमान
 श्रीकृष्णने सर्पकी समान श्वास खेंच कर महाबली अनाधृष्टिसे
 वचन कहा, कि-॥ ४८ ॥ ४९ ॥ हे नात सेनापति ! ऐसी बात
 नहीं है, देवता क्षुद्र कर्म करने वाले नहीं होते हैं, अकृतज्ञ नहीं
 होते हैं हीन भी नहीं होते हैं न प्रमादी होते हैं न मूर्ख होते हैं
 देवताओंके लिए ही मैं दानवोंका नाश करनेमें परम गहनपूर्वक
 लगा रहता हूँ और उनका मिय करनेके लिए ही मैं अद्भुत महा-
 बली दानवोंको युद्धमें मारता रहता हूँ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ मैं उन

मनाश्चासि तद्भक्तस्तस्मिन्ने रतः । कथं पापं करिष्यन्ति विज्ञा-
 यैर्वाविध हि माम् ॥ ५२ ॥ अजुद्राः सत्यवन्तरच नित्यं भक्ता-
 नुक्मिन्तः । तभ्यो न विप्रते पापं ब्रालिशत्वात् प्रभाषसे ॥ ५३ ॥
 कदाचिदिह पुंश्चन्या अनिरुद्धो हतो भवेत् । देवेषु समहेन्द्रेषु
 नैतत् कर्म विधीयते ॥ ५४ ॥ वीशम्पायन उवाच । एवं चिन्त-
 यमानस्य कृष्णस्याद्भुतकर्मणः । कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा ततोऽकू-
 रोऽत्रवीहनः ॥ ५५ ॥ मधुरं श्लक्ष्णया वाचा अर्थवाक्यविशारदः
 पच्छक्रस्य प्रभो कार्यं तदस्माकं विनिश्चितम् ॥ ५६ ॥ अस्माकं
 चापि यत्कार्यं तद्वि कार्यं शचीपतेः । संरक्ष्याश्च वयं देवीरस्मा-
 भिरचापि देवताः । देवतार्थं वयं चापि मानुषत्वमुपागताः ५७
 पद्मकूरवचनैश्चेदितो मधुसूदनः । सिग्धगम्भीरया वाचा पुनः

में ही परायण रहता हूँ मेरा मन उनमें ही लगा रहता है मैं उन
 का भक्त हूँ और उनका गिय करनेमें लगा रहता हूँ मुझको इस
 प्रकारका जान कर वे पापाचरण कैसे करेंगे ॥ ५२ ॥ देवता
 जुद्धतारहित सत्त्ववान् और सर्वदा भक्तों पर कृपा करने वाले
 होते हैं उनमें ऐसा पाप नहीं रह सकता तुम तो मूर्खतासे
 भाषण कर रहे हो ॥ ५३ ॥ किसी पुंशली (पुरुषोंमें मनको
 विचलित करनेवाली स्त्री) ने अनिरुद्धको हर लिया होगा इन्द्र-
 सहित देवताओंसे तो यह काफ हो नहीं सकता ५४ वीशम्पायनजी
 ने कहा, कि-इस प्रकार विचारते हुए अद्भुत कार्य करने वाले
 कृष्णके वचनको सुन कर प्रयोजन और वाक्यमें चतुर अनुरने
 मधुरवाणीसे मधुरतापूर्वक वचन कहा, कि-हे प्रभो ! इन्द्रका जो
 कार्य है उसको हम जानते हैं ॥ ५६ ॥ हमारा जो कार्य है वही
 कार्य शचीपति इन्द्रका है, देवताओंको हमारी रक्षा करनी चाहिये
 और हमें भी देवताओंकी रक्षा करनी चाहिये और हम भी
 देवताओंके लिये ही मनुष्य बने हैं ॥ ५७ ॥ अनुरके वचनोंसे

(१०३८) * महाभारत-हरिवंशपर्व * [एकविंशाधिकशततम

कृष्णोऽभ्यभाषत ५८ नायां देवीर्न गन्धर्वैर्न यक्षैर्न च राक्षसैः । मधु-
 म्नपुत्रोपहृष्टः पुंश्चल्यानु महागशाः ५९ मायादिदग्धाः पुंश्चल्यो
 दैत्यदानवयोपिनः । ताभिर्हृता न सन्देहो नान्यतो विद्यते भयम्
 वीशम्पायन उवाच । इत्येवमुक्ते वचने कृष्णेन तु महात्मना ।
 अथःहरयत तत्त्वेन यद् दूतं यदुमण्डलम् ॥ ६१ ॥ हर्षयन् स तु स
 सर्वोपां सूतमागधवन्दिनाम् । मधुरः श्रूयते घोषो माधवस्य निवे-
 शने ॥ ६२ ॥ ते चराः सर्वातः सर्वे सभाद्वारमुपागताः । शर्न-
 गद्गदया वाचा इदं वचनमब्रुवन् ॥ ६३ ॥ उद्योगानि गृहाः शैला
 सभा नद्यः सरांसि च । एकैकं शतशो राजन् मार्गितं न च
 दृश्यते ॥ ६४ ॥ अन्ये कृष्णं चरा राजन्नुपागम्य तदाऽब्रुवन् ।

इस प्रकार प्रेरित हुए मधुसूदन श्रीकृष्ण सिन्धु गम्भीर वाणी
 से फिर कहने लगे, कि-५८ महागशास्वी मधुमनपुत्र न देवताओं
 के द्वारा हरे गए हैं न गन्धर्वोंके द्वारा हरे गए हैं न यक्षोंके द्वारा
 हरे गए हैं और न राक्षसोंके द्वारा हरे गए हैं इनको तो पुंश्चली
 उड़ा कर लेगयी है ॥५९॥ मायामें चतुर दैत्य और दानवोंकी
 स्त्रियों पुंश्चली हैं निःसन्देह उन्होंने ही अनिकटको हर लिया है
 दूसरेसे भय नहीं होसकता ॥ ६० ॥ वीशम्पायनजीने कहा, कि-
 महा मा कृष्णके इसप्रकार कहने पर यादवोंका दूतमण्डल तत्त्व-
 चानके जान कर आता हुआ दीखा ॥ ६१ ॥ उस समय माधव
 के घरमें (तबके) हर्षित करता हुआ मृत मागध और वन्दिनों
 या मधुर घोष सुनाई दिया ॥ ६२ ॥ सब ओरसे दूत सभाके
 द्वार पर आ गए और गद्गद वाणीमें धीरेसे इस बातको कहने
 लगे, कि- ॥ ६३ ॥ हे राजन् ! पाग, गृहा, पर्वत, सभा, नदियों
 और सरोंपर इनमेंसे पर्येकमें हमने सैकड़ों बार दूँदा परन्तु
 (अनिकट) नहीं दीखा ॥ ६४ ॥ हे राजन् ! दूसरे दूत आकर
 भीकृष्णसे कहनेलगे, कि हमने सब देश देखे परन्तु अनिकट नहीं

सर्वे नो विदिता देशाः प्राद्युम्निर्न च दृश्यते ॥ ६५ ॥ यदन्गत्
 संविधातव्यां विधानं यदुनन्दन । तदाज्ञापय नः क्षिपमनिरुद्धस्य
 मार्गणो ॥ ६६ ॥ ततस्ते दीनमनसः सर्वे वाणाकुक्षेक्षणाः ।
 अन्योन्यमभ्यभाषन्त क्रिपतः कार्यमुत्तमम् ॥ ६७ ॥ सन्दष्टौष्ठृष्टाः
 केचित् केचिद्वाष्पाकुक्षेक्षणाः । केचिद् भ्रुकुटिमास्थाय चिन्तय-
 न्त्यर्थसिद्धये ॥ ६८ ॥ एवं चिन्तयतां तेषां बह्वर्थमभिभाषितम् ।
 अनिरुद्धः कुतश्चेति संभ्रमः सुपहानभूत् ॥ ६९ ॥ अन्योन्यम-
 पिषीक्षन्ते यादवा ज्ञातमन्यवः । तां निशां विगनस्कास्ते गमयेयुः
 कथञ्चन । अनिरुद्धो हूनश्चेति पुनः पुनररिन्दम ॥ ७० ॥ एवं
 च श्रुवतां तेषां गभाना रजनी तदा । ततस्तूर्यानिनादैश्च शंखानां
 च महास्वनैः प्रबोधनं महावाहं । कृष्णस्नाक्रिपतालये ॥ ७१ ॥
 गभाते विमले जातेगादुर्भूते दिवाकरोऽपविवेश सपां राजन् नारदः

गर्ही दीखा ६५ हे यदुन्दन ! मद्युम्नको हँहनेके लिये और जो
 घात करनी हो उसकी हमें शीघ्र ही आज्ञा दीजिये ६६ तदनन्तर
 उन, यादवोंका मन दीन होगया सबके नेत्रोंमें आँसू भर आए
 और आपसमें कहने लगे, कि—अब क्या कार्य करना चाहिये ६७
 कोई अपने ओठोंके काटने लगे किन्हीके नेत्र आँसुओंसे भर गए
 और कोई भ्रुकुटीके टेढ़ी करके अर्थसिद्धिके लिये चिन्ता करने
 लगे ६८ इस प्रकार विचार करके उन्होंने बहुतसा प्रयोजनभरा
 भाषण किया, अनिरुद्ध कहीं चला गया इस बातका उन्हें बड़ा
 भारी संभ्रम होने लगा ६९ क्रोधमें भरे हुए यादव एक दूसरेको
 देखने लगे, और उन्होंने मनमें उदास होकर किसी प्रकार वह
 रात्रि बिताई हे अरिन्दम ! अनिरुद्ध हर लिया गया इस बातको
 बारम्बार कहते हुए ही रात्रि बीत कर प्रातः राल होगया तद-
 नन्तर श्रीकृष्णके घरमें तूर्योंका नाद करके और शंखोंका बड़ा
 गारा शब्द करके महाभुज कृष्णको जगाया जाने लगा ७० ७१

(१०४०) * महाभारत-हरिबंशपर्व २ * [एकविंशतिशततम

प्रहसन्निव ॥ ७२ ॥ दृष्ट्वा तु यादवान् सर्वान् कृष्णेन सह संग-
तान् । ततः स जयशब्देन माधवं प्रत्यपूजयत् ॥ ७३ ॥ अथा-
भ्युन्थाय निमनाः कृष्णः सगितिदुर्जयः । मधुपर्कं च गां चैव
नारदाय ददौ प्रभुः ॥ ७४ ॥ सोपाविरयासने शुभ्रे सर्वास्तरण-
संवृते । सुवासीनो यथान्यायमुवाचेदं वचोऽर्थवत् ॥ ७५ ॥ नारद
उवाच । किमेवं चिन्तयाविष्टाः निःसङ्गा गतमानसाः । उत्सह-
हीनाः सर्वे वै ककीचा इव समासते ॥ ७६ ॥ इत्येवमुक्ते वचने
नारदेन महात्मना । वासुदेवोऽब्रवीद्वाक्यं श्रूयतां भगवन्निदम् ७७
अनिरुद्धो हृनो ब्रह्मन् केनापि निशि सुव्रत । यस्यार्थे सर्व एवा
स्मि चिन्तयाविष्टचेतसः ॥ ७८ ॥ एष ते यदि वृत्तान्तः श्रुत्वा
दृष्टोपि वा मुने । भगवन् कथ्यतां साधु मियमेतन्ममानघ ॥ ७९ ॥
इत्येवमुक्ते वचने केशवेन महामना । महस्यैतद्वचः प्राह श्रूयतां

जय निर्मल प्रभात होकर सूर्य निवल आए हे राजन् ! तब हंसते
हुए नारदजीने सभामें प्रवेश किया ७२ कृष्णके साथ सब यादवों
को बैठा हुआ देखकर नारदजीने जय २ करके माधवकी पूजाकी
तदनन्तर सगितिदुर्जय प्रभु कृष्ण उदास मनसे उठे और नारद
जीको मधुपर्क तथा गौदी ॥ ७४ ॥ नारदजी विद्वाने विद्वे हुए
शुभ्र आसन पर बैठ गए फिर सुखपूर्वक बैठनेके बाद वह
प्रयोगन भग हुआ यह उचित वचन कहने लगे ॥ ७५ ॥ नारद
जीने कहा, कि-आप इस प्रकार चिन्तामें भरे हुए निःसङ्गसे
कृष्णमाहरीन और स्त्रीवसे होकर क्यों बैठे हुए हैं ॥ ७६ ॥ महात्मा
नारदके इस प्रकार कहने पर वासुदेवने यह कहा, कि-सुनिये
हे सुव्रत ब्रह्मन् ! रातमें किसीने अनिरुद्ध को हर लिया है इसी
कारणमें हम सर्वोंका मन चिन्तामें भर रहा है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥
हे मुने ! यदि यह बात आपने देखी वा सुनी हो तो हे निष्ठाप !
आप इस बातको कहिये यह बात मुझे पिय है ॥ ७९ ॥

मधुसूदन ॥ ८० ॥ निवृत्तं सुगहयुद्धं देवासुरसमं महत् । अनि-
रुद्धस्य चैकस्य बाणस्यापि महामृधे ॥ ८१ ॥ उषा नाम सुता
तस्य बाणस्याप्रतिगौजसः । तस्यार्थे चित्रलेखा वै जहाराशु तम-
पसराः ॥ ८२ ॥ उषयोरपि तत्रासीन्महायुद्धं सुदारुणम् । प्राशु-
म्निबाणयोः संख्ये वलिनासवयोरिव ॥ ८३ ॥ अस्माभिश्चापि
तद्युद्धं दृष्टं सुगहदद्भुतम् । अनिरुद्धो भयात्तेन संयुगेष्वनिव-
र्तिना ॥ ८४ ॥ बाणेन मायामास्थाय बद्धो नोगैर्महाबलः । ज्या-
दिष्टस्तु वधस्तस्य बाणेन गरुड-ध्वज ॥ ८५ ॥ तं निवारितवान्
मन्त्री कुम्भाण्डो नाम तस्य ह । कुमारस्यानिरुद्धस्य तेनासक्तेन
संयुगे ॥ ८६ ॥ बाणेन मायामास्थाय सर्पैर्निगमनं कृतम् । उच्छिष्टतु
भवान् शीघ्रं यशसे विजयाय च ॥ ८७ ॥ नायं संरन्तितुं कालः

महात्मा केशवके इस प्रकार वचन कह्ये पर नारदजीने यह वचन
कहा, कि-हे मधुसूदन! सुनिये ८० इकले अनिरुद्धका और बाणासुर
का देवासुर संश्रामकी सपान बड़ा भारी युद्ध हुआ है । ८१ ।
अप्रतिम ओजस्वी बाणासुरकी ऊषा नाम वाली पुत्री है उसके
लिये चित्रलेखा नामवाली अपसराने अनिरुद्धको हरलिया है ८२
प्राशुम्नपुत्रका और बाणासुरका वलि और इन्द्रके दारुण युद्धकी
समान बड़ा भारी युद्ध हुआ था ८३ हपने भी वह अद्भुत युद्ध
देवा था युद्धमेंसे पीछेको न हटने वाले बाणासुरने अनिरुद्धके
ठरसे युद्धमें मायाका आश्रय लेकर सर्पोंके द्वारा महाबली अनि-
रुद्धको बाँध लिया था, हे गरुडध्वज ! फिर बाणासुरने-उसके
वधकी आज्ञा दी ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ तब उसको कुम्भाण्ड नामवाले
मन्त्रीने रोका था बाणासुर जब असक्त होगया था तब उसने
मायाका आश्रय लेकर कुमार अनिरुद्धको सर्पोंसे बाँध लिया
था इसलिये आप यश पानेके लिये और विजय पानेके लिये शीघ्र
ही उठिये ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ हे तात! जय चाहने वालोंके लिये यह

(१०४२) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * एकविंशतिप्रश्नोऽध्यायः

प्राणांस्तात जयैपिणाम् । प्राणैः किञ्चिद्भूतैर्वीरो धैर्यमालम्ब्य
तिष्ठति ॥ ८८ ॥ वैशम्पायन उवाच । इत्येवमुक्ते वनने वासुदेवः
प्रतापवान् । प्रायात्रिकान् वै संभारानाङ्गापयत धीर्यवान् ॥ ८९ ॥
ततश्चन्दनपूर्णेन लाजैश्चैव सगन्ततः । निर्ययौ स महाबाहुः
कीर्यमाणो जनार्दनः ॥ ९० ॥ नारद उवाच । स्मरणं वैनतेयस्य
कर्तुमर्हसि माधव । न हान्येन तदध्वानं शक्यं गन्तुं महाशुभ्र १
श्रःकर्णय तमध्वानं गन्तव्यमतिदुर्जयम् । एकादशसहस्राणि यो-
जनानां जनार्दन ॥ ९२ ॥ तदितः शोणितपुरं प्राद्यम्निर्यत्र सां-
प्रतम् । मनोजवो महावीर्यो वैनतेयः प्रतापवान् ॥ ९३ ॥ समा-
ह्वयस्व गोविन्द स हि त्वां तत्र नेष्यति । एतेन सुमुहूर्तेन चाणं
संदर्शयिष्यति ॥ ९४ ॥ वैशम्पायन उवाच । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा
प्राणोको वचनेका समय नहीं है वीर अनिरुद्धके प्राण कुछ ही
बाकी रहे हैं वह धैर्य धारण कर बैठा हुआ है ८८ वैशम्पायनजी
ने कहा, कि-इस प्रकार कहने पर धीर्यवान् प्रतापी वासुदेवने
यात्राके लिये सागान तयार करनेकी आज्ञा दी ॥ ८९ ॥ तद-
नन्तर महाबाहु जनार्दन चन्दनसे भरी हुई खीलोंकी चारों ओर
से बौद्धार पाते हुए (पुरीमेंसे) चला दिये ॥ ९० ॥ नारदजी
ने कहा, कि हे माधव ! इस समय आपको गरुड़जीका स्मरण
करना चाहिये हे महाशुभ्र ! उस मार्गको दूसरा तय नहीं कर
सकता ॥ ९१ ॥ आप जिस मार्गमें जाना चाहते हैं उस अति-
दुर्जय मार्गको सुनिये इस समय जहाँ पर अनिरुद्ध है वह शोणित-
पुर हे जनार्दन ! यहाँसे चौबालीस हजार फांस है गरुड़जी मन
की समान वेगवाले हैं महावीर्य हैं और प्रतापी हैं ९२ ॥ ९३
हे गोविन्द ! आप गरुड़जीको सुन्ताइये वह ही आपको तहाँ
लेजायेंगे वह एक मुहूर्तपरमें ही आपको बाणासुरको दिखादेंगे ९४
वैशम्पायनजीने कहा, कि-नारदजीके वचनको सुनकर श्रीकृष्ण

सस्मार गरुडं तदा। स कृष्णपार्वणागम्य प्राञ्जलिर्गरुडः स्थितः
 ६५ प्रणम्याथ वचः प्राह वीनतेगो महाबलः। वासुदेवं महात्मानं
 रत्नक्षणं मधुरया गिरा ॥ ६६ ॥ गरुड उवाच । पद्मनाभ महा-
 बाहो किमर्थं संस्पृशे ह्यहम्। कृत्यन्ते यदिहात्रास्मि श्रोतुमिच्छामि
 तत्त्वतः ॥ ६७ ॥ कस्य पत्नपरित्तेपैर्नाशयामि पुरीं मभो । प्रभा-
 वात्तव गोविन्द को न विद्याद्वलं मम ॥ ६८ ॥ गदावेगं च ते
 वीर चक्राग्निं च महाभुजा। नानबुध्यति मूढात्मा को दर्पान्नाश-
 मेष्यति ॥ ६९ ॥ इत्थं सिंहमुखं कस्य वनमाली नियोक्ष्यति । कस्य
 देहस्तु निर्भिन्नो मेदिनीं यास्यति मभो ॥ १०० ॥ कस्य शंखरज्जुः
 प्राणान् मोहयिष्यसि माधव । कोयं सपरिवारोद्य यास्यते यप-
 सादनम् ॥ १ ॥ एवमुक्ते तु वचने वीनतेनेन धीमता । वासुदेवो

ने गरुड़गीका स्मरण किया उस समय गरुड़गी श्रीकृष्णके पास
 आ हाथ जोड़ कर खड़े हो गए फिर महाबली गरुड़गी प्रणाम
 करके महात्मा वासुदेवसे मधुरवाणीमें मधुर वचन कहने लगे ६६
 गरुड़ नीने कहा, कि-हे महाभुज पद्मनाभ ! आपने मेरा किसलिने
 स्मरण किया है जो आपका कार्य हो उसको मैं तत्त्वपूर्वक सुनना
 चाहता हूँ ॥ ६७ ॥ हे मभो ! मैं अपने पदोंको फेंककर किसकी
 नगरीको नष्ट कर डालूँ हे गोविन्द ! आपके प्रभावसे मेरे बलको
 कौन नहीं जानता है ॥ ६८ ॥ हे वीर ! आपकी गदाके वेगको
 तथा हे महाभुज ! आपके चक्रकी अग्निको न जाननेवाला कौनसा
 मूढ़ आज दपवश नष्ट होना चाहता है ॥ ६९ ॥ आज वनमाली
 सिंहमुख इत्थको किसके ऊपर मारेंगे हे मभो ! आज किसका
 देह बिद बिध कर पृथिवी पर गिरेगा ॥ १०० ॥ हे माधव !
 आप शंखोंके शब्दसे किसके प्राणोंको मोहित करेंगे आज कौन
 अपने परिवारके साथ गमसादनको जावेगा ॥ १०१ ॥ हे वक्ताओं
 में श्रेष्ठ ! बुद्धिमान् गरुड़गीके इसप्रकार कहने पर वासुदेवने जो

वचः प्राह शृणु त्वं वदतां वर ॥ २ ॥ बलेः पुत्रेण वाणेन प्राद्यु-
म्निरपराजितः । उपायाः कारणे वद्धो नगरे शोणिताह्वये । अनि-
रुद्धस्तु कामार्तो वद्धो नागैर्विपोन्वणैः ॥ ३ ॥ तस्य गोक्षार्थमा-
हूतो मया त्वं पतगेश्वर । तव वेगे समो नास्ति पत्निणां स्वरो
भवान् । अशक्यं च तदध्वानं गन्तुमन्पेन काश्यप ॥ ४ ॥ तत्र
प्रापय मां शीघ्रं यत्र प्राद्युम्निरानसत् । वीदर्भी तु स्नुषा वीर-
रुदती पुत्रवृद्धिनी ॥ ५ ॥ त्वत्प्रसादाद्भवत्येवा पुत्रेण सह भा-
मिनी । अमृतं तु हृतं पूर्वं त्वया पन्नगनाशन ॥ ६ ॥ मया सह
सगागम्य तस्मिन् काले महाभुज । अभयन्मे ध्वजश्चैव त्वद्भक्ताः
सर्ववृष्णयः । सखित्वं मानगस्वाद्य भक्तिं च पतगेश्वर ॥ ७ ॥
तव वेगसमो नास्ति पत्निणो न च ते समाः । सुपर्णं सुकृतेन

बात कही थी उसको आप सुनिये १०२ बलिके पुत्र वाणासुरने
शोणितपुरमें ऊपाके कारण अपराजित अनिरुद्धको कैद कर
लिया है और कामार्त अनिरुद्ध तीव्र विषवाले सर्पोंसे बँधाहुआ
है १०३ हे पत्तिराज ! उसको छुड़ानेके लिये मैंने तुम्हें बुलाया
है आपकी समान वेगवान् कोई नहीं है आप पत्तियोंमें श्रेष्ठ हैं
हे काश्यप ! दूसरा उस मार्गमें नहीं जासकता १०४ जहाँ पर
अनिरुद्ध है तहाँ पर तुम मुझे शीघ्र ही पहुँचादो, हे वीर ! पुत्रको
चाहने वाली तुम्हारी पुत्रवधु वीदर्भी रो रही है (रुक्मीकी पुत्री
अनिरुद्धकी माताको श्रीकृष्णने गरुड़जीको अपना भाई समझकर
प्राद्युम्नकी भार्या होनेके कारण पुत्रवधु बनाया है) ॥ १०५ ॥
आपके प्रसादमे यह भामिनी अपने पुत्रके साथ चैटेगी
हे सर्पोंको भक्षण करने वाले ! तुमने पहली पहल मेरे
साथ रह कर अमृत हर लिया था हे महाभुज ! उस
समय तुम मेरे ध्वजा चने थे सब वृष्णिवंशी आपके भक्त हैं हे
पन्नगेश्वर ! आप मित्रता और भक्तिका सत्कार करियो ॥७॥

त्वां शपे पन्नगनाशन ॥ ८ ॥ दासीभावं गता माता मोक्षितैका-
 किना पुरा । ज्ञेपविज्ञेपमाश्रित्य हता वाधा त्वया पुरा ॥ ९ ॥
 भवान् सुरगणान् सर्वान् पृष्ठमारोप्य विक्रमात् । गच्छ मे ह्यग-
 मान् देशान् विजययन् तत्राश्रयात् ॥ ११० ॥ गुरुत्वान्मेरुतुल्य-
 स्त्वं लघुत्वात् पवनोपमः । भूते भव्ये भविष्ये च न ते तुल्योऽस्ति
 विक्रमे ॥ ११ ॥ सत्यसन् महाभाग वीनतेय महाद्युते । अनि-
 रुद्धेक्षणेनाय साहाय्यमुपकल्पयताम् ॥ १२ ॥ गरुड उवाच । अत्य-
 श्रुतमिदं वाक्यं तव कृष्ण महाभुज । त्वत्प्रसादाच्च विजयः सर्व-
 जीव महाभुज ॥ १३ ॥ धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि संस्तवान्गधुम्
 वन । स्तोतव्यस्त्वं मया कृष्ण स्तौषि मां त्वं महाभुज ॥ १४ ॥

तुम्हारे बेगकी समान कोई नहीं है पत्नी भी तुम्हारे बराबर नहीं
 है हे पन्नगनाशन गरुड ! मैं तुम्हें पुण्यकी शपथ दिलाता हूँ ८
 आपने पहले दासीभावमें पड़ी हुई अपनी माताको अपनेले अपने
 आप ही पक्षोंके फेंकनेका आश्रय लेकर छुड़ा दिया था और
 उसकी वाधाको-नष्ट कर दिया था ॥ १०९ ॥ आप अपने पराक्रम
 से सब देवताओंको अपनी पीठ पर सवार करके जिन देशोंमें
 मैं नहीं जासकता हूँ उन देशोंमें चलिये अब तुम्हारे ही हाथ
 विजय है ॥ ११० ॥ तुम भारीगनमें मेरुपर्वतकी समान हो और
 हलके होनेसे पवनकी समान हो भूत भविष्य और वर्तमान काल
 में भी आपकी समान पराक्रममें कोई नहीं हो सकता ॥ १११ ॥
 हे महाभाग सत्यप्रतिज्ञा और महाकान्तिमान् गरुड ! आप अनि-
 रुद्धको देखनेमें आज साहायता करिये ॥ ११२ ॥ गरुडजीने
 कहा, कि-हे महाभुज ! आपका यह कहना अति अश्रुत है
 हे महाभुज ! आपकी कृपासे ही हमारी सर्वत्र विजय होती है
 हे मधुसूदन ! आपकी स्तुति करनेसे मैं धन्य और अनुगृहीत
 होगया हूँ मुझे आपकी स्तुति करनी चाहिये थी तब भी

१ रावणनाशनः । विभीषणस्य भगवान् राज्यदो बालिनाशनः २ १
 २ सुग्रीवराज्यदाता त्वं बलिंराज्यापहारकः । रत्नहर्ता महारत्नं समु-
 ३ द्रोदरसम्भवः ॥ २२ ॥ बरुणश्च भवान् खद्यातो भवांश्च सरि-
 ४ दुङ्गवः । भवान् खड्गंधरो धन्वी धनुर्धरचरो महान् ॥ २३ ॥
 ५ दाशार्ह इति विख्यातो महाधन्वा धनुःमियः । गोविन्द इति वि-
 ६ ख्यात उदधिस्त्वं च सुव्रत ॥ २४ ॥ आकाशश्च तपश्चैव समुद्र-
 ७ मथनो भवान् । भवान् स्वर्गो बहुफलो भवान् स्वर्गचरो महान् २ ५
 ८ त्वमेव च महामेघो बीजनिष्पत्तिरेव च । ईलोक्यमथनस्त्वं च
 ९ क्रोधलोभमनोरथाः ॥ २६ ॥ भवान् कामपदश्चैव कामः सर्व-
 १० धनुर्धरः । संवर्तो वर्तनश्चैव मलयो निलयो महान् ॥ २७ ॥
 ११ हिरण्यगर्भो रूपज्ञो रूपवान् मधुमूदनः । ईशस्त्व च महादेव

के गणराज और दामोदर नामसे प्रसिद्ध हैं ॥२०॥ आप अस्ति-
 लोकाके मारने वाले और रावणको नष्ट करनेवाले हैं आप विभी-
 षणको राज्य देनेवाले और बालिको नष्ट करनेवाले हैं ॥२१॥
 सुग्रीवको राज्य देनेवाले, बलिके राज्यको छीननेवाले रत्नोंको
 ग्रहण करनेवाले महारत्नस्वरूप और समुद्रोदरसम्भव अर्थात्
 धन्वन्तरि है ॥२२॥ आप बरुण नामसे प्रसिद्ध हैं और नदियों
 के उत्पत्तिस्थान अर्थात् मेरु हैं आप खड्गधारी धनुषधारी और
 धनुषधारियोंमें श्रेष्ठ हैं तथा बड़े पुरुष हैं ॥ २३ ॥ आप दाशार्ह
 नामसे प्रसिद्ध हैं धनुषको मिय समझनेवाले और महाधनुर्धर हैं
 हे सुव्रत ! आप गोविन्द और समुद्ररूपसे प्रसिद्ध हैं ॥२४॥ आप
 आकाश और तप हैं तथा समुद्रको मथनेवाले हैं आप स्वर्गस्वरूप
 अनेक फल देनेवाले और स्वर्गमें विचरण करनेवाले हैं ॥२५॥
 आप महामेघ बीजांकी निष्पत्ति और त्रिलोकीमें विचरण करने
 वाले हैं आप क्रोध-लोभ और मनोरथस्वरूप हैं २६ आप काम-
 नाओंको देनेवाले कामस्वरूप, सर्वधनुर्धर, संवर्त, मलय; वर्तन

असंख्येयगुणान्वितः ॥ २८ ॥ स्तोतुमिच्छसि मां देव
 स्तोतव्यस्त्वं यदूत्तम । चक्षुषा ये त्वया घोराः प्राणिनो
 हि निरीक्षिताः ॥ २९ ॥ हतास्ते यमदण्डेन तिर्यङ्
 निरयगामिनः । ये त्वया परमप्रीत्या प्राणिनो वै निरीक्षिताः १३०
 इह च प्रेत्य ते सर्वे सर्वाथा स्वर्गगामिनः । एष तेहं महाबाहो
 वशगः शासने स्थितः ॥ ३१ ॥ जपस्थानं ततः कृत्वा गरुडः पूह
 वेशवम् । अगमस्मि स्थितो वीर आरुहस्व महाबल ॥ ३२ ॥
 ततः कण्ठे परिष्वज्य माधवो गरुडं ततः । सखे शत्रुविनाशाय
 अत्रोपमतिगृह्यताम् ॥ ३३ ॥ दत्त्वाय परया प्रीत्या शखचक्र-
 गदासिधुम् । अरुरोह महाबाहुः सुपर्णं पुरुषोत्तमः ॥ ३४ ॥
 कृष्णस्य पारर्गागम्य हर्षादेवास्थितोऽभवत् । कृष्णकेशः

और निलय है ॥ २७ ॥ आप हिरण्यगर्भ रूपको जाननेवाले,
 रूपवान् मधुसूदन तथा ईश हैं और असंख्य गुणोंसे युक्त महा-
 देव है ॥ २८ ॥ हे यादवोंमें उचम ! आप स्तुति करने योग्य हैं
 हे देव ! फिर भी आप मेरी स्तुति करना चाहते हैं आपमें जिन
 भगंकर प्राणियोंको अपनी (भगंकर) दृष्टिसे देखते हैं वे यम-
 दण्डसे मारे जाते हैं और पत्नीकी योगि तथा नरकमें पड़ते हैं
 और जिन प्राणियोंको आपने परमप्रीतिसे देखा है वे सब प्रकार
 से स्वर्गमें जावेंगे, हे महाभुज ! मैं आपके वशमें हूँ और आपकी
 आज्ञा वजानेके लिये आपके सागने खड़ा हूँ ॥ २९ ॥ ३१ ॥
 उस समय गरुड़ने प्रस्थान करनेकी चेष्टा करके केशवसे कहा, कि-
 हे वीर ! हे महाबल ! मैं खड़ा हूँ आप मुझ पर सवार हूजिये ३२
 तदनन्तर माधवने गरुडसे गले मिल कर (कहा, कि-) हे सखे
 शत्रुओंका विनाश करनेके लिये इस अर्घ्यको आप ग्रहण करिये ३३
 शख चक्र गदा और तलवारके धारण करनेवाले, महाभुज
 श्रीकृष्ण अर्घ्य देकर परमप्रेमके साथ गरुड़नी पर सवार हो गए ३४

प्रबलयो विष्णुः कृष्णश्च वर्णतः ॥ ३५ ॥ चतुर्दशरत्नसुवर्द्धरच
 तुवेदपद्मद्वित् । श्रीवत्सांकोऽरविन्दान्न ऊर्ध्वरोमां मृदुत्तचः ३६
 समागुलिः समनन्दो रक्तागुलिनखान्तरः । स्निग्धगम्भीनिर्घोषो
 वृत्तवाहुर्मदाभुजः ॥ ३७ ॥ आगानुवाहुस्ताम्रास्यः सिंहविस्पष्ट-
 विक्रमः । सहस्रगिब सूर्पाणां दीपमानः पकाशते ॥ ३८ ॥
 यः मधुर्पाति विश्वात्मा भूगर्भा भावनेो विभुः । यस्याष्टगुणमै-
 श्वर्यं ददौ प्रीतः प्रजापतिः । प्रजापतीनां साध्वानां त्रिदशानां
 च शाश्वतः ॥ ३९ ॥ स्तूपमानः स्तूर्वादिर्व्यैः सूतमागधचन्द्रिभिः ।
 ऋषभिरच महाभागेर्वेदवेदाङ्गपारगैः ॥ १४० ॥ संविधानमथा-
 ह्नांश्च द्वांरकायां महाबलः । गमनाय पतिं चक्रे वासुदेवः प्रताप-
 कृष्णके पीछे हर्षमें भरकर काले केशवाले बलदेवजी भी बैठ गए
 विष्णु वर्णमें काले थे और श्रेष्ठ बलको धारण कर रहे थे ३५
 उनकी चार टाड़ें थीं चार भुजाएँ थीं बड़े चारों वेद और बड़ों
 अज्ञोंको जाननेवाले थे उनके श्रीवत्सका चिन्ह था और, नेत्र कमल
 की समान थे उनके रुएँ ऊपरको खड़े हुए थे और खाल मुला-
 यम थी ॥ ३६ ॥ उनकी अंगुलियों सम थीं नाखून सम थे अंगु-
 लियों लाल २ थीं और नखोंके भीतरका भाग भी लाल २ था
 उनका स्वर स्निग्ध और गम्भीर था भुजाएँ गोल थीं और बड़ी
 बड़ी थीं ३७ तथा घुटनोंतक लटकती थीं मुख तोंवकी समान था
 और सिंहजी समान स्पष्टरीतिसे कदमर चलाते थे और सहस्रों
 सूर्योंकी समान दिपकर प्रकाशित हो रहे थे ॥ ३८ ॥ प्राणिभोंका
 कल्याण चाहनेवाले जो विश्वात्मा विभु प्रकाशित होते रहते है
 और प्रजापतिने प्रसन्न होकर मिनयो आठ गुण वाला ऐश्वर्य
 दिया है, जो प्रजापति साध्य और देवताओंमें भी शाश्वत हैं ३९
 ऐसे महाबली प्रतापी वासुदेव वेदवेदांगमें पारंगत महाभाग
 ऋषियों से और सूतमागध ब्रह्मियोंसे स्तुति पाते हुए द्वारकाती, रक्षा

(१०५०) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [द्वाविंशाधिकशततम

वान् ॥ ४१ ॥ आस्थितो गरुडं देवस्तस्य चानु इलायुधः । पृष्ठ-
तोऽनु बलस्यापि प्रद्युम्नः शत्रुरूपणः ॥ ४२ ॥ जग वाण महाबाहो
ये चास्यानुगता रणे । न हि ते प्रमुखे स्थातुं कश्चिच्छक्तो महा-
मृधे ॥ ४३ ॥ प्रसादे ते ध्रुवा लक्ष्मीर्विजयश्च पराक्रमे । विजे-
ष्यसि रणे शत्रुं दैत्येन्द्रं सह सैनिकम् ॥ ४४ ॥ सिद्धचारण-
संग्रानां महर्षीणां च सर्वशः । शृण्वन् वाचेऽन्तरिक्षे वै प्रयगौ
केशवो रणे ॥ १४५ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशो विष्णुपर्वणि कृष्णप्रयाणं
नामैकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥

वैशम्पायन उवाच । ततस्तूर्यनिनादैश्च शंखानां च महास्वनैः ।
चन्द्रिमागधमृतानां स्तर्गश्चापि सहस्रशः ॥ १ ॥ सतून्मुखैर्जया-
शीर्षिः स्तूयमानो हि मानवैः । वयार रूपं सोमार्कशुक्राणां

की आवाज़ देकर चलनेका विचार करनेलगे १४०।१४१ भगवान्
गरुड़के ऊपर चढ़ गए उनके पीछे बलदेवजी चढ़ गए और बल-
देवजीके पीछे शत्रुओंको खेंचने वाले प्रद्युम्न भी बैठ गए १४२
उस समय केशव सिद्ध चारण और महर्षियोंके संग्रही (निम्न
लिखित) बातोंको अन्तरिक्षमें सुनते हुए चलने लगे, कि—हे
महाभुज कृष्ण ! आप वाणासुरके जीतिये और जो उसके पीछे
रणमें आये उनको भी जीतिये, महायुद्धमें आपके ही मामने कोई
भी खड़ा नहीं होसकना, आपके प्रसादमें निश्चय लक्ष्मी रहती है
और पराक्रममें विजय रहती है आप रणमें दैन्येद्रके उसके सौनि-
कोंके साथ जीत सकेंगे ॥ १४३-१४५ ॥ एक सौ इकीसवाँ
अध्याय समाप्त ॥ १२१ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-तदनन्तर तूर्योंके निनाद और
शंखोंके बड़े भागी शत्रु और चन्द्री मागध तथा मृतोंके स्तोत्र
और जग के आशीर्षकोंमें सुनि पाते हुए श्रीकृष्णने चन्द्रमा सूर्य

प्रतिमं तदा ॥२॥ अतीव शुशुभे रूपं व्योम्नि तस्योत्पत्तिष्यतः ।
 वैजतेयस्य भद्रं ते वृंहितं हरितेजसा ॥३॥ अथाष्टवाहुः कृष्णस्तु
 पर्वताकारसन्निभः । विवर्षा पुण्डरीकाक्षो विकीर्त्तन बाणसं-
 क्षयम् ॥४॥ असिचक्रगदाभाणा दक्षिणं पार्श्वमास्थिताः । चर्म
 शार्ङ्ग तथा चापं शंखं चैवास्य वामतः ॥५॥ शीर्षाणां वै सहस्रं
 तु विहृतं शार्ङ्गधन्वना । सहस्रं चैव कायानां बहून् संकर्षण-
 स्तदा ॥६॥ श्वेतमहरणोऽधृष्यः कैलाम इव मृद्भवान् । मस्थितो
 गरुडेनाथ उन्ननिव दिवाकरः ॥ ७ ॥ सनत्कुमारस्य वपुः प्राहु-
 रासीन्महात्मनः । मद्युम्नस्य महाबाहोः संग्रामे, विक्रमिष्यतः ८
 स पन्नबलविक्षेपैर्विधुन्वन् पर्वतान् बहून् । जगाम मार्गं बलवान्
 वातस्य प्रतिषेधपन् ॥ ९ ॥ अथ वायोरतिगतिमास्थाय गरुड-

और शुक्रकी समान रूपकी धारण कर लिया ॥ १॥२॥ उस
 समय आकाशमें उड़ते हुए भगवान् के तेजसे बड़े हुए गरुड़जीका
 रूप आकाशमें परम शोभित दीखने लगा । ३। उस समय आठ
 भुजा वाले पर्वताकार पुण्डरीकाक्ष बाणासुरका क्षय चाहते हुए
 शोभा पाये लगे ॥४॥ उनके बाईं ओर चक्र तलवार गदा और
 बाण रखे हुए थे और दाहिने शार्ङ्ग धनुष तथा शंख बाईं ओर
 रखा हुआ था ५ शार्ङ्ग धनुषकी धारण करनेवालेने उस समय
 सहस्र शिर बना लिए थे और संकर्षणने सहस्र शरीरोंको धारण
 कर लिया था ६ श्वेत आयुधवाले बलदेवजी अधृष्य कैलासपर्वत
 की समान प्रतीत होते थे गरुड़के ऊपर (बैठे हुए) बलदेवजी
 उदय होते हुए सूर्यकी समान प्रतीत होते थे ७ संग्राममें पराक्रम
 करने वाले महाभुज मद्युम्नका उस समय सनत्कुमार-शरीर
 मकट होगया ८ बलवान् गरुड़जी अपने बलवान् पंखोंको फँकते
 हुए वायुके मार्गको रोकते हुए और बहूनसे पर्वतोंको कँपाते हुए
 चलने लगे ९ तदनन्तर गरुड़जी वायुकी बड़ी भारी गतिको धारण

(१०५२) * महाभारत हरिवंशपर्व २ * [द्वाविंशधिकशततम

स्तदा । सिद्धचारणसंघानां शुभं मार्गमवातरत् ॥ १० ॥ अथ
रामोऽब्रवीद्वाक्यं कृष्णमप्रतिमं रणे । स्वाभिः प्रभाभिर्हीनाः स्म
कृष्ण कस्मादपूर्ववत् ॥ ११ ॥ सर्वे कनकवर्णाभाः संवृत्ताः स्म
न संशयः । किमिदं ब्रूहि नस्तत्त्वं किं मेरोः पार्श्वगा वयम् ॥ १२ ॥
श्रीभगवानुवाच । मन्ये वाणस्य नगरगभ्यासस्थमरिन्दम । रक्षार्थं
तस्य निर्यातो बह्विरेष स्थितो ज्वलन् ॥ १३ ॥ अग्नेराहवनीयस्य
प्रभया स्म समाहताः । तेन नो वर्णवैरूप्यमिदं जातं हलायुध ॥
श्रीराम उवाच । यदि स्म सन्निकर्षस्था यदि निष्प्रभतां गताः ।
तद्विधत्स्व स्वयं बुद्ध्या यदत्रानन्तरं हितम् ॥ १४ ॥ श्रीभगवा-
नुवाच । कुरुष्व वैनतेय त्वं यच्च कार्यमनन्तरम् । त्वया विधाने
विहिते करिष्याम्यहमुत्तमम् ॥ १६ ॥ वैशम्पायन उवाच । एत-

कर सिद्ध चारणोंके शुभ मार्गमें आगए १० उस समय बलरामजी
ने रणमें अप्रतिम श्रीकृष्णसे यह वाक्यकहा, कि-हे कृष्ण ! हम
अपनी प्रभासे हीन क्यों होगए हैं ? ऐमा तो पहले कभी नहीं
हुआ था ११ हम सब सुनर्यकी समान आभावाले होगए है यह
क्या है ? इसका तत्त्व हमसे कहिये, क्या हम मेरुपर्वतके समीपमें
आगएहैं १२ श्रीभगवान् ने कहा, कि-हे अरिदमन ! मैं समझता
हूँ, कि-हम वाणासुर के नगरके समीप आगए हैं नगरकी रक्षा
करनेके लिये यह मदीप्त अग्नि निकल कर खड़ा होगया है १३
हम आहवनीय अग्निकी प्रभासे समाहत होरहे हैं, हे हलायुध !
इससे हमारा वर्ण विगड़ गया है १४ बलरामजीने कहा; कि-गदि
हम इसके पासमें होनेपर ही निष्प्रभ होगए हैं तोअब जो हितकारी
घात ही उसको अपनी बुद्धिसे सोच कर करिये १५ श्रीभगवान्
ने कहा, कि-हे वैनतेय ! अब जो कार्य करना चाहिये उसको
करिये आपके उपाग करने पर मैं जिस कार्यको उत्तम समझूँगा
उसे करूँगा १६ वैशम्पायनजीने कहा, कि-इच्छानुसार रूपधारण

च्छुत्वा तु गरुडो वासुदेवस्य भाषितम् । तत्र मुखसहस्रं हि
 कामरूपी महाबलः ॥१७॥ गङ्गासुपागमत्पूर्णे वैततेयो महाबलः ।
 आत्प्लुत्याकाशगङ्गायापापीय सलिलं यद्गु ॥ १८ ॥ प्रववर्षो-
 परिगनो वैतनेयः प्रतापवान् । तेनाग्निं शमयामास बुद्धिमान् विन-
 तात्मजः ॥ १९ ॥ अग्निराहवनीयस्तु ततः शान्तिमुपागमत् । तं
 दृष्ट्वाहवनीयं तु शान्तमाकाशगङ्गाया । परमं विस्मयं गत्वा सुपर्णो
 वाक्पमत्ररीत् ॥२०॥ अथोवीर्यपथाग्निं तु यो दद्रेद्युगसंज्ञये २१
 त्रयल्लपाणां लोकानां पर्याप्ता इति मे मतिः । कृष्णः संकर्षणश्चैव
 मधुम्वरश्च महाबलः ॥ २२ ॥ ततः मशान्ते दहने सम्पतस्थे स
 पत्निराट् । स्वपन्नवत्तविद्योपं कुर्वन् घोरं महास्वनम् ॥ २३ ॥
 तं दृष्ट्वा विस्मयं तत्र रुद्रस्यानुचराभ्यः । आस्थिता गरुडं ह्येते

करनेवाले महाबली गरुडजीने वासुदेवके इस भाषणको सुनकर
 सहस्र मुख बना लिपे ॥१७॥ फिर महाबली गरुडजी शीघ्रनासे
 गङ्गाजी पर पहुँचे और उन्होंने आकाशगङ्गामें कूदकर बहुतसा जल
 पीलिया १८ फिर मतापी गरुडजी ऊपर बढ़कर वर्षा बरसाने लगे
 इस प्रकार बुद्धिमान् विनतानन्दने उस जलसे अग्निको शान्त कर
 दिया १९ तब आहवनीय अग्नि शान्त होगया आहवनीय अग्निको
 आकाशगङ्गासे शान्तहुआ देखकर कृष्ण संकर्षण और महाबली
 मधुम्वन परम विस्मित हुए तब सुपर्णने वाक्य कहा, कि-अहो !
 आग्निका वीर्य ऐसा है कि-बड़ प्लवकालमें सबको भस्म करता
 है परन्तु मेरा विचार है, कि-कृष्ण संकर्षण और महाबली मधुम्वन
 यह तीनों तीनों लोकोंके लिए पर्याप्त है । २०-२२ । तदनन्तर
 अग्निके शान्त होने पर पत्निराज गरुड अगने पंखोंको बलपूर्वक
 फटफटा बढ़ाभारी गर्यकर स्वर करते हुए चलने लगे २३। इस
 को देखकर रुद्रकी अनुचर अग्निमें विस्मित होने लगीं "अनेक
 प्रकारके रूप धारण करनेवाले गरुडपर बैठे हुए ये यहाँ पर

(१०५४) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [द्वाविंशतिशततमो

नानारूपा भयावहाः ॥ २४ ॥ किमर्थमिह सम्भासाः के वापीमे
 जनास्त्रयः । निश्चयं नाधिगच्छन्ति ते गिरिव्रजवन्द्यः ॥ २५ ॥
 प्रावर्तयंश्च संग्रामं तैस्त्रिभिः सह यादवैः । तेषां युद्धमसक्तानां
 स नादः सुमहानभूत् ॥ २६ ॥ तं च श्रुत्वा महानादं सिंहाणा-
 गिव गर्जताम् । अथाङ्गिराः स्वपुरुषं प्रेषयामास बुद्धिमान् । २७ ॥
 यत्र तद्वर्तते युद्धं तत्र गच्छस्व गा चिरम् । दृष्ट्वा तत्सर्वमागच्छ
 इत्युक्तः पस्थितस्त्वरन् ॥ २८ ॥ तथेत्युवत्वा स राघुद्वं वर्तमान-
 मर्षीकृत । अग्नीनां वासुदेवेन संसक्तानां महामृधे ॥ २९ ॥ ते
 जातवेदसः सर्वे कल्माषः कुसुमस्तथा । दहनः शोषणश्चैव तप-
 नश्च महाबलः ॥ ३० ॥ स्वाहाकारस्य विषये प्रख्याताः पञ्च-
 वन्द्यः । अथापरे महाभागाः स्वैरनीकैर्व्यवस्थिताः ॥ ३१ ॥
 पिठरः पतगः स्पर्णः श्वागाधो भ्राज एव च । स्वधाकाराश्रयः

क्यों आप हैं और ये तीनों कौन हैं' गिरिव्रजकी अग्निमें इस
 बातका कुछ निश्चय न कर सकीं ॥ २५ ॥ और वे तीनों यादवों
 के साथ संग्राम करने लगीं तब उन युद्ध करनेवालोंका बड़ा भारी
 शब्द होने लगा २६ दहाड़नेवाले सिंहोंकी समान उस महानाद
 को सुनकर बुद्धिमान् अंगिरा अपने पुरुषको तहाँ भेजने लगे २७
 (उससे कहा, कि-) जहाँ पर यह युद्ध हो रहा है तहाँ पर तू जा
 देर मत कर और सब बातों देखकर आ, इसभोंति कहने पर वह
 त्वराके साथ चलने लगा २८ बहुत अच्छा कहनेके बाद उसने
 होता हुआ युद्ध देखा उस महायुद्धमें अग्नि और वासुदेव संलग्न
 हो रहे थे २९ कल्माष कुसुम, दहन, शोषण, महाबल-तपन यह
 स्वाहाकारके विषयमें पतिद्ध पाँच अग्निमें और दूसरी महाभाग
 अग्निमें भी अपनी सेनाओंके साथ तहाँ डट रहीं थीं । ३० । ३१ ।
 पिठर, पतग, स्पर्ण, श्वागाध तथा भ्राज स्वधाकारके आश्रयसे
 रहनेवाली ये पाँच अग्निमें भी तहाँ लड़ रहीं थीं । ३२ । महा-

व अप्युर्ध्वंस्तेऽपि चाग्नयः ॥ ३२ ॥ ज्योतिष्टोमविभागी च
 ट्काराश्रणौ पुनः । द्वावग्नी सम्पद्युभ्येते महात्मानौ महानुती
 ग्नेयं रथवास्थाय शरमुद्यम्य भारवाम् । तयोमेध्यैर्द्विराश्च च
 पिर्विचभौ रथे ॥ ३४ ॥ स्थितमद्भिरस हृष्टा विमुनन्तं शितान्
 तान् । कृष्णः प्रोवाच संक्रुद्धः स्मयन्निव पुनः पुनः ॥ ३५ ॥
 पुध्वमग्नयः सर्वे एष वो विदधे भगम् । ममास्त्रनेजसा दग्धा
 शो यास्यथ विद्रुताः । अथाद्भिरास्त्रिशूलेन दीप्तेन समभावत ३६
 दिदान इव क्रोधात् कृष्णपूष्णान् महामृधे । त्रिशूलं तस्य दीप्तं
 चिच्छेद् परमेपुनिः । अर्धचन्द्रैस्तथा तीक्ष्णैर्मार्कदहनमभैः ३७
 पूष्णाकर्णेन चाणेन दीप्तेन स महापनाः । विव्याधान्तकतुन्येन
 तस्यद्भिरसं तनः ॥ ३८ ॥ रुषिरौघप्लुनेर्गारैरंगिरा विहनन्निव ।

। न्तिवान् महात्मा ज्योतिष्टोम और विभाग नामक बषट्कारके
 ॥ अग्नयसे रहनेवालीं दो अग्नियों भी तहाँ घुड़ करने लगी ३३
 हर्षि अंगिरा (मुख्य अग्नि) आग्नेय रथमें बैठकर पूकाशवान्
 णको उठा उन दोनों अग्नियोंके मध्यमें शोभा पाने लगे ३४
 तीक्ष्णनाणोंको दौड़ते हुए अंगिराको खड़े हुए देखकर क्रोध
 ररे हुए कृष्णसे चारम्बार मुस्कुरा कर कहने लगे, कि-॥ ३५ ॥
 ई सब अग्नियों ! तुम सब खड़ी रहे मैं यह तुम्हारे ऊपर भय
 डालना हूँ तुम मेरे अस्त्रके तेजसे जब झुन्नसेगी, तो दिशाओंमें
 को भाग जाओगी उस समय अंगिरा क्रोध करके महाघुड़में
 कृष्णके प्राणोंको पकड़ते हुएसे प्रदीप्त शूलको लेते हुए दौड़े जब
 श्रीकृष्णने यम सूर्य और अग्निकी समान पूषावाले अति तीक्ष्ण
 अर्धचन्द्राकार श्रेष्ठ बाणोंसे उस त्रिशूलको काट डाला ॥ ३६ ॥ ३७ ॥
 तदनन्तर महामना श्रीकृष्णने यमराजकी सनात रथूष्णाकर्ण
 नामक प्रदीप्त बाणसे अद्भिराके बतःसंगलको बेध डाला ॥ ३८ ॥
 रुषिरकी धाराओंसे भीगते हुए अद्भिराके कारण अंगिरा विहल

(१०५६) * महाभारत हरिवंशपर्वर * [द्वाविंशाधिकशततम

त्रिष्टयगात्रः सहसा पपात धरणीतले ॥ ३६ ॥ शंपास्ततोऽग्नयः
सर्वे चत्वारो ब्रह्मणः सुताः । आधावन्तस्तदा शीघ्रं वाणस्य
पुरपन्तिकात् ॥ ४० ॥ अथागमत्ततः कृष्णो यत्र वाणपुरं ततः ।
अथ वाणपुरं दृष्ट्वा दूरात् प्रोवाच नारदः ॥ ४१ ॥ एतत्तच्छोणित-
पुरं कृष्ण पश्य महाभुज । अत्र रुद्रो महातेजा रुद्राण्या सहि-
तोऽवसत् ॥ ४२ ॥ गृहश्च वाणगुप्त्यर्थं सततं क्षेमभारणात् ।
नारदस्य वनः श्रुत्वा कृष्णस्त्वदमथाव्रवीत् ॥ ४३ ॥ क्षणं
चिन्तयतामत्र श्रूयतां च महामुने । यदि वावतरेद्रुद्रो वाणसंरक्षणं
पूति ॥ ४४ ॥ शक्तितो वयमप्यत्र सह योत्स्थाम तेन त्रै । एवं
विवदगोस्वत्र कृष्णनारदयोस्तदा ॥ ४५ ॥ पाप्मा निमेषमात्रेण
शीघ्रणा गरुडेन ते । ततः शंखं समाध्याय वदने पुष्करेक्षणः ४६

होगए और शरीरके स्तब्ध होजानेके कारण पृथिवीमें सहसा
गिर पड़े ॥ ३६ ॥ तदनन्तर बाकी बचे हुए ब्रह्माजीके पुत्र
चारों अग्नि वाणापुरमेंको शीघ्रतासे भाग गए ॥ ४० ॥ तब
तो कृष्ण जहाँ वाणपुर था तहाँको चलने लगे नारदजीने
दूरसे ही वाणपुरको देखकर कहा, कि-४१ हे महाभुज कृष्ण !
देखिये ! यह शोणितपुर है यहाँ पर महातेजस्वी कृष्ण रुद्राणी
के साथ रहने हैं ४२ और वाणासुरकी रक्षा करनेके लिये स्वामी
कार्तिकेय भी यहाँ रहने हैं नारदजीके वचनको सुनकर कृष्णने
यह बात कही कि-४३ हे महामुने ! आप मेरी बातको सुने और
क्षण भर विचार करें, यदि वाणासुरकी रक्षा करनेके लिये भग-
वान् शंकर आजाएंगे ४४ तो हम भी उनके साथ यहाँ शक्ति
अनुसार लड़ेंगे नारद और कृष्ण इस प्रकार कह सुन रहे थे ४५
कि-क्षणमात्रमें गरुड़ पर शीघ्रतासे चलकर तहाँ पर पहुँच गए,
तदनन्तर कमलकी समान नेत्र वाले श्रीकृष्णने अपने मुखमें शंख
लगवाया ४६ मंत्र जैसे चन्द्रमाके उगलना है इसी प्रकार वायुनेग

: वायुवेगसमुद्गतो मेघश्चन्द्रगिबोद्धिरन । ततः प्रधाप्य तं शंखं
 : भयमृताय वीर्यवान् ॥४७॥ प्रविवेश पुं कृष्णो वाणस्याद्भुत-
 : कर्मणः । ततः शङ्खाणां भेरीणां च महास्वनैः ॥४८॥ वाणा-
 : नीकानि सहस्रासन्नह्यन्त समन्ततः । ततः किंकरसैन्यं तु व्या-
 : दिष्टं समरे भयात् ॥ ४९ ॥ कोटिशिखापि बहुशो दीप्तगहरणा-
 : स्तदा । तदसंख्येयमेकस्थं महाभ्रमनसन्निभम् ॥५०॥ नीलाञ्जन-
 : चयमख्यमपमेगमपाक्षयम् । दीप्तगहरणाः सर्वे दैत्यदानवराक्षसाः ॥
 : प्रमाथगुणमुख्याश्च अयुध्वन् कृष्णगव्ययम् । सर्वतस्तैः मदीसास्यैः
 : सार्विष्णुद्भिरिवाग्निभिः ॥५२॥ अभ्युपेत्य तदात्युग्रैर्यत्तराक्षस-
 : किन्नरैः । पीयते रुधिरं तेषां चतुर्णापि संयुगे ॥ ५३ ॥ तद्दलं
 : तु समासाद्य बलभद्रो महाबलः । प्रोवाच वचनं तत्र पश्यस्व बल-
 : नाशनम् ॥५४॥ कृष्ण कृष्ण महाबाहो विधत्स्वीषां महद्भयम् ।

से समुद्भूत हुए वीर्यवान् कृष्ण (दानवों) को भय उत्पन्न करते
 हुए शंखको बजाने लगे ४७ अद्भुत कर्म करने वाले कृष्ण वाणा-
 सुरके घरमें घुमने लगे तदनन्तर शंखोंके नादसे और भेरियोंके
 बड़े भारी शब्दसे वाणासुरकी सेना तयार होने लगी, तदनन्तर
 (वाणासुरने) भयके कारण सेनाको रणमें जानेकी आज्ञा
 दी ॥४८॥४९॥ उसमें चमकते हुए आयुधवाले करोड़ों योधा ये
 एक जगह खड़े हुए उन असङ्ख्य योधाओंका दल घनी घनपटा
 की समान प्रतीत होता था और काले अंजनके ढेरकी सपान
 लगता था वह अप्रमेय था और अक्षय प्रतीत होता था, चमकते
 हुए आयुध वाले सब दैत्य दानव और राक्षस और मुख्य २
 प्रमाथगुण अथवा कृष्णसे युद्ध करने लगे लपटोंवाले अग्निपों
 की समान चमकते हुए मुखवाले यत्तराक्षस किन्नर युद्धमें
 उन चारोंके रक्तको पीने लगे ॥ ५०-५३ ॥ महाबली बलभद्र
 उनके बलको जान कर अपने बलको नष्ट होता हुआ देग्व कर

(१०५८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [द्वाविंशाधिकशततम

इति सञ्चोदितः कृष्णो बलभद्रेण धीमता ॥ ५५ ॥ तेषां वधार्थ-
माग्नेयं जग्राह पुरुषोत्तमः । अस्त्रमस्त्रविदां श्रेष्ठो यमान्तकसग-
प्रभः । प्रविभूयासुरगणान् क्रव्यादानस्त्रतेजसा ॥ ५६ ॥ प्रययौ
त्वरया युक्तो यत्र दृश्येन तद् बलम् । शूलपट्टिशशक्त्यष्टिपिनाक-
परिघायुधम् ॥ ५७ ॥ प्रपाथगणभूयिष्ठं बलं तदभवत् क्षिप्तौ ।
शैलमेघप्रतीकाशैर्नार्नारूपैर्भयानकैः । बाहनीः संघशः सर्वे योधा-
स्तत्रावनस्थिरे ॥ ५८ ॥ बातोद्भूतैरिव घनैर्विप्रकीर्णैरिवाचलैः ।
शुशुभे तत्र बहुनीरनीरैर्दृढग्निरिभिः । मूसलैरसिभिः शूलैर्गदाभिः
परिघैस्तथा ॥ ५९ ॥ अवाचं तदसंख्येयं शुशुभे सर्वतो बलम् ।
ततः संकर्षणो देवमुवाच मधुसूदनम् ॥६०॥ कृष्ण कृष्ण महा-
यह वचन कहने लगे ॥ ५४ ॥ हे महाभुज कृष्ण ! इनको अच्छी
प्रकारसे दण्ड दीजिये बुद्धिमान् बलभद्रके इसप्रकार कहनेसे यम-
राजकी समान प्रभा वाले अस्त्र जानने वालोंमें श्रेष्ठ पुरुषोत्तम
श्रीकृष्णन उनका वर करनेके लिये आग्नेय अस्त्रको ग्रहणकिया
और अपने अस्त्रके तेजसे कच्चे मांसका भक्षण करनेवाले राक्षसों
को कँपाते हुए त्वराके साथ तहाँको चले जहाँ पर शूल पट्टिश
शक्ति ऋष्टि पिनाक और परिघ अदि आयुधोंको धारण करने
वाले तथा जिनमें बहुतसे प्रमाथ थे, ऐसी सेना जहाँ पृथिवी पर
खड़ी हुई दीख रही थी, वहाँ पर सब योधा टोली बाँध कर पर्वत
और मेघकी समान विशाल अनेक प्रकारके भयानकरूप वाले
बाहनों पर बैठे हुए थे ॥ ५५-५८ मूसल, तलवार, शूल, गदा
और परिघ तथा दृढ धनुषगारी बहुतसी सेनाओंसे वह स्थान
वायुमें उड़ते हुए बादलोंकी समान और फैलते हुए पर्वतोंकी
समान शोभा पाने लगा । ५९। वह असह्य तथा जिसकी पीड़ा
न दी जासके ऐमा सेनादल चारों ओरसे शोभा पाने लगा तद-
नन्तर बलदेवभी मधुसूदनदेवसे कहने लगे, कि-॥६०॥ कृष्ण ।

(१०६०) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [द्वाविंशाधिकशततम

गानान् महाबलः ॥६७॥ स्निग्धाञ्जनचगप्रखच्यः शंखचक्रगदा-
धरः । मध्माप्य बहुशः शंखमयुग्गत जनार्दनः ॥६८॥ पद्मप्रहार-
निहता नखतुण्डाग्रदारिताः । गीता वीवस्त्रतपुरं वीनतेयेन धीमता
तैर्हन्पमानं दत्यानामनीकं भीमनिक्रमम् । अभङ्गत् तदा संख्ये
वाणवर्षसमाहृतम् ॥७०॥ मध्यगानेष्वनीरेषु ज्ञातुकागः समभ्य-
मात् । ज्वरस्त्रिपादस्त्रिशिराः पद्भुजो नवलोचनः ॥७१॥ भस्म-
महरणो रौद्रः कालान्तरुयभोपमः । नदन् मेघसहस्रेण तुल्यो
निर्घातनिःस्वनः ॥ ७२ ॥ निःश्वसन् जृम्भमाणश्च निद्रान्वित-
तनुर्धृशम् । नेत्राभ्यामाकुलं वक्रं मुहुः कुर्वन्भ्रमन् मुहुः ॥ ७३ ॥
संहृष्टरोमा ग्लानान्तो भग्नचित्त इव श्वसन् । हलायुधमभिकुद्दः

चिकुने अंजनके द्वेकी समान शंख चक्र और गदाको धारण करने वाले श्रीकृष्ण अनेक बार शङ्खको बजाकर युद्ध करने लगे बुद्धिमान् गरुड़जीने (बहुतसे राजसोंको अपने पंखोंके प्रहारसे मार कर और नाखनोंसे विदीर्ण करके यमराजकी नगरीको भेज दिया ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ उन वीरोंसे पिटता हुआ भयंकर पराक्रम करने वाला दैत्योंका सेनादल बाणोंकी बाणसे घायल होकर युद्धसे भागने लगा ॥ ७० ॥ सेनाओंमें भग्नी पढ़ने पर उनको घबानेकी इच्छासे तहाँ पर ज्वर आया उसके तीन पैर थे और तीन शिर थे छः भुजाएँ थीं जो नेत्र थे ७१ वह धूलका महार करता था और वह शिवजीका ज्वर यमराजकी समान था, सहस्र सैनोंकी समान गड़गड़ा रहा था और उष्णपातकी समान शब्द कर रहा था ॥ ७२ ॥ वह साँस ले रहा था जंभाई ले रहा था और उसका शरीर निद्रासे भररहा था वह अपने नेत्रोंसे अपने मुखको व्याकुल बना रहा था और बारम्बार घूम रहा था ७३ उसके रोम दर्पमें भर रहे थे उसके नेत्र उदास होरहे थे और वह दृष्टे हुए निच वाले पुरुषकी समान स्वास ले रहा था उसने मो

साक्षेपिदमववीत् ॥ ७४ ॥ किमेवं बलमक्षोसि न मां पश्यसि
 संयुगे । तिष्ठ तिष्ठ न मे जीवन् मोक्षसे रणमूर्धनि ॥ ७५ ॥
 इत्येवमुक्त्वा महसन् इलापुत्रमुपाद्रवत् । युगान्ताग्निनिभैर्वीरै-
 र्मुष्टिभिर्जनयन् पगम् ॥ ७६ ॥ चरतस्तत्र संग्रामे मण्डलानि सह-
 स्रशः । रौहिणेयस्य शीघ्रेण नावस्थानमदृश्यता ॥ ७७ ॥ तस्य भस्म
 तदाक्षिप्तं अवरेणामतिगौगसा । शैघ्रयाद्बलौ निपतितं शरीरे पर्व-
 तोपमे ॥ ७८ ॥ तद्भस्म वक्षस्तस्य मेरोः शिखर्यागमत् । प्रदीप्तं
 पतितं तत्र गिरिशृङ्गं व्यदारयत् ॥ ७९ ॥ शोषेण वापि जज्वाल
 भस्मना कृष्णपूर्वजः । निःश्वसन् जृम्भमाणश्च निद्रान्विततनु
 र्भृशम् ॥ ८० ॥ नेत्रगोराकुलत्वं च मुहुः कुर्वन् भ्रमंस्तथा । संहृष्टरोगा

में भरकर बलदेवजीसे आक्षेपके साथ यह बात कही, कि-७४
 तू इस प्रकार बलसे क्यों मत्त हो रहा है क्या तू मुझे युद्धमें नहीं
 देखता खड़ा रह ! खड़ा रह ! मैं तुझे रणके मुहाने पर जीता
 हुआ नहीं छोड़ूंगा ॥ ७५ ॥ इस प्रकार कहनेके उपरान्त वह
 ज्वर हुआ और अपनी मलकालकी अग्निकी समान भयंकर
 मुष्टियोंसे भय उपजाता हुआ बलदेवजीके ऊपर दौड़ा ॥ ७६ ॥
 उस समय सहस्रों मंडलोंकी संग्राममें दिखाते हुए बलदेवजीका
 शीघ्रताके कारण कोई छिद्र दिखाई नहीं देता था ॥ ७७ ॥ अम-
 तिम आज बाले ज्वरने, उनके ऊपर शीघ्रतासे भस्म फेंकी वह
 उनके पर्वतकी समान शरीरमें वक्षः स्थल पर पड़ी ॥ ७८ ॥ फिर
 वह भस्म उनके वक्षः स्थलसे मेरु पर्वतके शिखर पर पहुँची और
 उसने मदीप्रक्षालसे गिर कर पहाड़के शिखरको तोड़ डाला ७९
 जो भस्म बलदेवजीके वक्षःस्थलमें लगी हुई रह गई थी उस भस्म
 से वह जलने लगे साँस खँचने लगे जंभाई लेने लगे और उन
 का शरीर सोने लगा ८० उनके नेत्रोंमें आकुलता प्रतीत होनेलगी
 और वह बारम्बार भ्रम करने लगे उनके रोम खिलने लगे नेत्र

साक्षेपमिदमब्रवीत् ॥ ७४ ॥ किमेवं बलवत्तोसि न मां पश्यसि
 संयुगे । तिष्ठ तिष्ठ न मे जीवन् गोक्षयसे रणमूर्धनि ॥ ७५ ॥
 इत्येवमुक्त्वा महसन् इलापुत्रमुपाद्रवत् । युगान्ताग्निनिर्भ्रैरि-
 र्मुष्टिभिर्जनयन् भगम् ॥ ७६ ॥ चरतस्तत्र संग्रामे मण्डलानि सह-
 स्रशः । रौहिणेयस्य शीघ्रेण नावस्थानमदृश्यन् ॥ ७७ ॥ तस्य भस्म
 तदाक्षिप्तं ज्वरेणामनिगौजसा । शैघ्रयाद्ब्रह्मो निपतितं शरीरे पर्व-
 तोपमे ॥ ७८ ॥ तद्भस्म वक्षसस्तस्य मेरोः शिखरस्यागमत् । पदीप्तं
 पतितं तत्र गिरिशृङ्गं व्यदारयत् ॥ ७९ ॥ शेषेण वापि जज्वाल
 भस्मना कृष्णपूर्वजः । निःश्वसन् जृम्भमाणश्च निद्रान्विततनु
 र्भृशम् ॥ ८० ॥ नेत्रयोरानुकूलत्वं च मुहुः कुर्यन् भ्रमंस्तथा । संहृष्टरोषा

में भारकर बलदेवजीसे आक्षेपके साथ यह बात कही, कि-७४
 तू इस प्रकार बलसे क्यों मत्त हो रहा है क्या तू मुझे युद्धमें नहीं
 देखता खड़ा रह । खड़ा रह । मैं तुझे रणके मुहाने पर जीता
 हुआ नहीं छोड़ूँगा ॥ ७५ ॥ इस प्रकार कहनेके उपरान्त वह
 ज्वर हुआ और अपनी मलकालकी अग्निकी समान भयंकर
 मुष्टिगोसे भय उपजाता हुआ बलदेवजीके ऊपर दौड़ा ॥ ७६ ॥
 उस समय सहस्रों मंडलोंको संग्राममें दिखाते हुए बलदेवजीका
 शीघ्रताके कारण कोई छिद्र दिखाई नहीं देता था ॥ ७७ ॥ अ-
 तिम ओज वाले ज्वरने उनके ऊपर शीघ्रतासे भस्म फेंकी वह
 उनके पर्वतकी समान शरीरमें वक्षः स्थल पर पड़ी ॥ ७८ ॥ फिर
 वह भस्म उनके वक्षः स्थलसे मेह पर्वतके शिखर पर पहुँची और
 उसने पदीप्तरूपसे गिर कर पहाड़के शिखरको तोड़ डाला ७९
 जो भस्म बलदेवजीके वक्षःस्थलमें लगी हुई रह गई थी उस भस्म
 से वह जलने लगे साँस खेंवने लगे जंभाई लेने लगे और उन
 का शरीर सोने लगा ८० उनके नेत्रोंमें आकुलता मतीत होनेलगी
 और वह बारम्बार भ्रम करने लगे उनके रोम खिलने लगे नेत्र

(१०६२) * महाभारत-हरिचंशपर्वर * [द्वाविंशाधिकशततम

ग्लानान्तः क्षिप्तचित्त इव, स्वसन् । ततो हलधरो भग्नः कृष्ण-
गाह विचेतनः । कृष्ण कृष्ण महावाहो मतीतोस्म्यभयं कुरु ८२
दह्यामि सर्वतस्तात कथं शान्तिर्भवेन्मम । इत्येवमुक्ते वचने बले-
नागिततेजसा ॥ ८३ ॥ महस्य वचनं प्राह कृष्णः प्रहरतां वरः ।
न भेतव्यमितीत्युक्त्वा परिष्वक्तो हलायुधः ॥ ८४ ॥ कृष्णेन
परमस्नेहात्ततो दाहात् ममुच्यत । मोक्षयित्वा बलं तत्र दाहात्तु
मधुसूदनः ॥ ८५ ॥ प्रोवाच परमकुद्रो वासुदेवो ज्वरं तदा ।
श्रीभगवानुवाच । एषोहि ज्वर युध्वस्व या ते शक्तिर्महामृधे ८६
यच्च ते पौरुषं सर्वं तद्दर्शयतु नो भवान् । सव्येतराभ्यां बाहु-
भ्यामेवमुक्तो जारस्तदा ८७ निलोपैनं महद्भस्म ज्वालागर्भं महाबलः ।
ततः मदीप्तगात्रस्तु मुहूर्तमभवत्पृथुः ॥ ८८ ॥ कृष्णः प्रहरतां श्रेष्ठः

भारी होनेलगे, और वह बाबलेकी समान श्वास लेने लगे ८१ तब
तो हलधर उदास हो गए और उन्होंने अपने मनसे कृष्णसे कहा,
कि-कृष्ण ! कृष्ण ! हे महाभुज कृष्ण ! अब तो मैं मराजाता
हूँ आप मुझे अभय करिये ॥ ८२ ॥ हे तात ! मैं चारों ओरसे
जल रहा हूँ मुझे किस प्रकार शान्ति मिले, अमित तेजस्वी बल-
देवके इस प्रकार वचन कहने पर ॥ ८३ ॥ प्रहार करनेवालोंमें
श्रेष्ठ श्रीकृष्णने हँस कर यह बात कही, कि-तुम डरो मत ! इस
प्रकार कहनेके उपरान्त उन्होंने बलदेवजीका आलिंगन किया ८४
कृष्णने परमप्रेमसे उनका आलिंगन किया तब उनका दाह जाता
रहा मधुसूदनने बलदेवजीको दाहसे छुड़ा दिया तदनन्तर क्रोधमें
भरे हुए वासुदेव ज्वरसे कहने लगे, भगवान्ने कहा, कि-हे ज्वर !
आ ! आ ! तेरी जितनी शक्ति हो उससे तू मेरे साथ युद्धकर
तुझमें जितना पुरुषार्थ हो उस-साथको हमें दिखा, जब श्रीकृष्णने
दाहिनी और बाई भुजासे ज्वरसे इस प्रकार कहा ॥ ८५-८७ ॥
तब महाबली ज्वरने ज्वाला भरी हुई भस्म श्रीकृष्णके ऊपर

शमं चाग्निर्गतस्वतः । ततस्तीर्भुजगागारैर्बाहुभिस्तु त्रिभिस्तदा ।
 जगान कृष्णं ग्रीवायां मुष्टिनीकेन चोरसि । स संप्रहारस्तुमुल-
 स्तगोः पुरुषसिंहयोः ॥ ६० ॥ ज्वरस्य तु महायुद्धे कृष्णस्य तु
 तु महोजसः । पर्वतेषु पतन्तीनामशनीनामिव स्वनः ॥ ६१ ॥
 कृष्णज्वरभुजाघातैर्युद्धपासीत् सुदारुणम् । नैवपेवं पृहर्तव्यगिति
 तत्र महास्वनः । मुहूर्तमभवद्युद्धमन्योन्यं तुं महात्मनोः ॥ ६२ ॥
 ततो ज्वरं कनकचित्रभूषणं न्यपीडयद्भुजबलयेन संयुगे । जग-
 त्तम्यं समुपनयन् जगत्पतिः शरीरधृग्गगनचरं महामृधे ॥ ६३ ॥
 इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिर्वांशे विष्णुपर्वणि कृष्णज्वरयुद्धे
 द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥

फेंकी तब तो क्षण भरके लिए महारि करने वालोंमें श्रेष्ठ प्रभु
 श्रीकृष्णका शरीर जलता हुआ सो दिखाई दिया तदनन्तर वह
 अग्नि शान्त होगई तदनन्तर उस ज्वरने जिनमें सर्प लिपट रहे
 थे ऐसी अपनी तीन भुजाओंसे श्रीकृष्णके एकको पकड़ लिया
 और एक हाथसे उनके वक्षःस्थलमें एक घूँसा मारा तदनन्तर
 उस महायुद्धमें महातेजस्वी कृष्ण और ज्वर इन दोनों पुरुषसिंहों
 का तुमुल युद्ध होने लगा उस समय उन दोनोंके प्रहारका शब्द
 पर्वत पर पड़ने हुए बज्रोंकी समान होने लगा ॥ ६०-६१ ॥
 कृष्ण और ज्वरकी भुजाओंके आघातसे तहाँ पर दारुण युद्ध
 होने लगा, तहाँ पर यह बड़ा भारी शब्द हुआ, कि-इस प्रकार
 महारि नहीं करना चाहिये, इस प्रकार उन दोनों महात्माओंमें
 मुहूर्त भर तक युद्ध हुआ ॥ ६२ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्ण सुवर्णके
 विचित्र आभूषणोंको धारण करने वाले ज्वरको अपनी भुजाके
 कंकणसे पीड़ित करने लगे जगत्पति श्रीकृष्ण जगत्का जय
 करने वाले और महायुद्धमें शरीर धारण कर आप हुए आकाश-
 चारी ज्वरको पीड़ित करने लगे ॥ ६३ ॥ ॥ १२२ ॥

यदुनन्दन । यो मे मनोरथो देव तं त्वं कुरु महाशुभं ॥ १५ ॥
अहमेको ज्वरस्तात नान्यो लोके ज्वरो भवेत् । त्वत्पसादद्भि
देवेश वरमेनं वृणोम्यहम् ॥१६॥ देव उवाच । एवं भवतु भद्रन्ते
यथा त्वं ज्वर कान्तसे । वरार्थिनां वरो देवो भवांश्च शरणां गतः
एक एव ज्वरो लोके भवानस्तु यथा पुरा । श्रेयं मया ज्वरः
सृष्टो मय्येवैष प्रलीयताम् ॥१७॥ वैशम्पायन उवाच । एवमुक्ते
तु वचने ज्वरं प्रात महागशाः । कृष्णः प्रहरतां श्रेष्ठः पुनर्वाक्य-
मुवाच ह ॥ १६ ॥ नासुदेव उवाच । शृणुष्व ज्वर सन्देशं यथा
लोके चरिष्यसि । सर्वजातिषु विश्रब्धं यथा स्थावरजङ्गमे । २०।
त्रिधा विगज्य चात्मानं मरिच्यं यदि कान्तसे । चतुष्पादान् भजे-
केन द्विीयेन च स्थावरान् ॥२१॥ तृतीयां यश्च ते भागो मानु-

उसरो आप सुनिये हे महाशुभदेव ! जो मेरा मनोरथ है उस
को आप पूर्ण करिये ॥ १५ ॥ हे तात ! मैं ही एक ज्वर
रहूँ संसारमें और कोई दूसरा बुवार न हो हे देवेश ! आप
की कृपासे मैं इस वरको माँगना चाहता हूँ । १६ ॥ भगवानने
कहा, कि—“ तथास्तु ” तेरा रुग्णता ही हे बुवार ! तू जैसा
चाहता है तैसा ही हो वर माँगने वालाको वर देना चाहिये और
तुम भी शरणा में आ गए हो ॥ १७ ॥ संसारमें एक ही बुवार
रहें पहलेकी समान एक आप ही रहे, और जिस ज्वरको मैंने
रना है वह मुझमें ही लीन हो जाए ॥ १८ ॥ वैशम्पायनने भी
कहा, कि—इस प्रकार वाची ने हाने पर महार करने वालोंमें श्रेष्ठ
महागशास्त्री श्रीकृष्णने ज्वरसे फिर यह बात कही, कि—१६
नासुदेव कहने लगे हे बुवार ! तू स्थावर जगपत्नी सब जानियों
में जिस प्रकार विश्रब्ध होकर घूम सकेगा उस संदेशको सुन
यदि तू मेरा विग करना चाहता है तो अपने शरीरका तीन भागों
में बाँट अर्धात्तु अपने तीनों शरीर बना, एक शरीरमें जोर पेर

पेषुपगत्स्वते । त्रिधा भूतं वपुः कृत्वा पक्षिषु त्वं धनं ज्वर २२
 चतुर्थो यस्तृतीयस्य भविष्यति स ते धुनम् । एकान्तरस्तृतीयस्तु
 स वै चातुर्थिको ज्वरः ॥ २३ ॥ मानुषेष्वपि भेदेन वस त्वं ग-
 विभङ्गं वै । जानिष्वथीनशेषासु निवस त्वं शृणुष्व मे ॥ २४ ॥
 वृक्षेषु कीटरूपेण तथा संकोचपत्रकः । पाण्डुरपत्रश्च विरगताः फले-
 प्वानुर्गमेव च ॥ २५ ॥ श्यां तु नीलिकां विशान्छिखोद्भेदेन बहि-
 णाम् । पद्मिण्यादीं हिमो भूत्वा पृथिव्यामपि चोपरः ॥ २६ ॥
 गौरिकः पर्वतेष्वेव मत्पसादाद्भविष्यति । गोष्चपस्मारको भूत्वा
 खोरकरश्च भविष्यति ॥ २७ ॥ एषं त्वं बहुरूपेण भविष्यसि

बालोंका सेवन कर दूसरे शरीरसे स्थावरोंके भोग । २१ । और
 जो तेरा तीसरा शरीर है उसका पशुप्योंके ऊपर प्रयोग करना
 उचित है हे बुखार ! तू अपने शरीरसे तीन प्रकारका करके इस
 प्रकार रह और तेरे तीसरे शरीरका जो चौथा हिस्सा है उससे
 तू पक्षियोंके ऊपर प्रहार करना जिसमें एक दिन बीचमें पड़ता
 है वह तिजोरी बुखार भी तू ही हो, और जिसमें तीन दिन
 बीचमें पड़ते हैं ऐसा चातुर्थिक बुखार भी तूही होगा । २२ । २३ ।
 तू मनुष्योंमें भी अपने शरीरके भेद करके निवास कर और अ-
 शिष्ट योनियोंमें भी निवास कर और मेरी बातको भी तू सुन २४
 तू वृक्षोंमें कीटरूप होकर निवास कर और पत्तोंको सँघोड़ने वाला
 तथा पत्तोंको सफेद करने वाला होकर निवास कर और फलों
 में आतुर्यरूप होकर निवास कर ॥ २५ ॥ और जलोंमें नीलगा
 रूप होकर निवास कर और मोरोंमें उनकी शिखाका गिरना बँन
 कर निवास कर और कमलिनी आदिमें पाला बन कर निवास
 कर और पृथ्वीमें फल्लड़ बनकर निवास कर ॥ २६ ॥ और तू
 मेरे प्रसादसे पर्वतोंमें गौरिक (गेरु) होजावेगा और गौश्योंमें
 अपस्मारक (भूतावेश) और खोरख (चरण रोग) होवेगा २७

(१०६८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [त्रयोविंशधिकंशततम

गहीतलो । दर्शनात् स्पर्शनाच्चापि प्राणिनां बधयेष्यसि ॥२८॥
श्रुते देवगनुष्यास्तां नान्यस्तु विसर्हिषति । वैशम्पायन उवाच ।
कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा उवरो हृष्टमना शभूत् ॥ २९ ॥ प्रोवाच
वचनं किञ्चित् प्रणमित्ना कृताञ्जलिः । उवर उवाच । सर्वजाति-
प्रभुत्वेन कृतो धन्योऽस्मि माधव ॥ ३० ॥ भूयश्च ते वचः कर्तु-
मिच्छामि पुरुषर्षभ । तदाज्ञापय गोविन्द किं करोमि महाभुज ३१
अहमसुरकुलप्रमाथिना त्रिपुरहरेण हरेण निर्मितः । रणशक्तिं
विनिर्जितस् वया प्रभुरसि देव तदास्मि किंकरः ॥ ३२ ॥ धन्यो-
स्म्यनुग्रहीतोऽस्मि यत्त्वया मत्पियं कृतम् । आज्ञापय पियं किं ते
चक्रायुध करोम्यहम् ॥ ३३ ॥ वैशम्पायन उवाच । उवरस्य वचनं

इम प्रकार तू पृथ्वीमें अनेक रूपोंसे विचरण करेगा और छू कर
तथा दर्शन देकर प्राणियोंको मारडाला करेगा ॥ २८ ॥ देवता
और मनुष्योंके अतिरिक्त और कोई तुझे नहीं सह सकेगा, वैश-
म्पायनजीने कहा, कि-श्रीकृष्णके वचनको सुनकर उवरका चित्त
मसन्न होगया ॥ २९ ॥ और वह हाथ जोड़ कर प्रणाम करके
कुछ कहने लगा, बुखारने कहा, कि हे माधव ! आपने मुझे
सब जातियोंका स्वामी बना दिया अतः मैं धन्य होगया ॥३०॥
हे पुरुषश्रेष्ठ ! अब मैं आपकी कुछ आज्ञा पालन करना चाहता
हूँ हे गोविन्द ! उसकी आप आज्ञा दीजिये हे महाभुज ! मैं क्या
करूँ ॥३१॥ राजसोंके कुलका नाश करने वाले त्रिपुरको हरने
वाले भगवान् हरने मुझे रचा है और आपने मुझे रणके सुहाने
पर जीत लिया अतः आप मेरे प्रभु होगए और हे देव ! मैं आप
का किंकर होगया हूँ ॥३२॥ आपने जो मेरा पिय कार्य किया
इससे मैं धन्य और अनुग्रहीत होगया हूँ आज्ञा दीजिये हे चक्रा-
युध ! मैं आपका क्या पिय कार्य करूँ ॥ ३३ ॥ वैशम्पायनजी
कहने लगे; कि बुखारके वचनको सुनकर वासुदेवने यह बात

श्रुत्वा वासुदेवोऽप्रवीक्षितः । अगिसर्पिं मृणुष्याद्य यत्त्वां वक्ष्यामि
 निदध्यात् ॥ ३४ ॥ श्रीभगवानुवाच । महाहवे तव मय च द्वयो-
 रिमं पराक्रमं भुजबलकेशलास्त्रयोः । मण्डम्य मामेकपनाः पठेत्सु
 यः स वै भवेत्ज्वरविगतज्वरो नरः ॥ ३५ ॥ त्रिणाञ्जस्ममहरण-
 म्निशिंग नबलोचनः । स मे प्रीतः सुखं दद्यात् सर्वामपपति-
 ष्वरः । ३६ ॥ आश्रयन्तवन्तः कवयः पुराणाः सूक्ष्मा बृहन्तो-
 ष्यनुशासितारः । सर्वान् ज्वरान् घ्नन्तु ममानिकृद्मधुम्नसं-
 कर्षणवासुदेवाः ॥ ३७ ॥ वैशम्पायन उवाच । एवमुक्तस्तु कृष्णेन
 ज्वरः सान्नात्महात्मना । प्रोवाच यदुशादूलमेवमेतद्भविष्यतिऽऽ-
 वरं लब्ध्वा ज्वरो हृष्टः कृष्णाच्च समयं पुनः । मण्डम्य शिरसा
 कृष्णमपक्रान्तस्ततो रणात् ॥ ३६ ॥

कही कि-मैं जिस बातका निश्चय करके कहता हूँ मेरी उस बात
 को तुम सुनो ॥३४॥ श्रीभगवान् ने कहा, कि-जो व्यक्ति एकाग्र
 चित्तसे मुझे प्रणाम करके जिसमें भुजाका बल ही अस्र है ऐसे इस
 महायुद्धमें हुए हमारे और तुम्हारे दोनोंके पराक्रमको पढ़े वह
 पुरुष बुखारसे छूट जाया करे ३५ ॥ (उस समय निम्नलिखित
 अर्थ वाले मंत्रको पढ़ना चाहिये)तीन पैर वाला भस्मका महार
 करनेवाला तीन शिर वाला नौ नेत्र वाला सब रोगोंका स्वामी
 बुखार मसन्न होकर मुझे सुख देय ॥ ३६ ॥ आदि अन्तकाले
 चतुर, पाचीन, सूक्ष्म, महान् तथा शासन करने वाले अनिकृद्
 मधुम्न बलदेव और वासुदेव यह मेरे सब बुखारोंको नष्ट करें ३७
 वैशम्पायनजीने कहा, कि-महात्मा श्रीकृष्णने मत्पत्त होकर ज्वर
 से इस प्रकार कहा, तब यादवोंमें सिंहवी समान श्रीकृष्णसे ज्वर
 ने कहा, कि ऐसा ही होगा ३८ ॥ वरको पाकर बुखार मसन्न
 होगया था फिर उसने वासुदेवसे प्रतिज्ञा की फिर वह वासुदेव
 को शिर झुका प्रणाम कर रणमेंसे भाग गया ॥ ३६ ॥ १२३

(१०७०) *महाभारत-हरिवंशपर्व २* चतुर्विंशतिशतिकाशततम

वैशम्पायन उवाच । ततस्ते त्वरिताः सर्वे त्रयस्त्रय इना-
 ग्नयः । वैनतेयमथारुह्य युभयमाना रणे स्थिताः ॥ १ ॥ ततः सर्वा-
 एयनीकानि बाणवर्षैरवाकिरन् । अर्दयन् वैनतेयस्था नदन्तोऽति-
 वलाद्रणे ॥ २ ॥ चक्रलाङ्गलपातैश्च बाणवर्षैश्च पीडितम् । स-
 च्चुकोप महानीकं दानवानां दुरासदम् ॥ ३ ॥ कृत्वाग्निरत्न संवृद्धः
 शुक्रेन्धनसमीरितः । कृष्णबाणाग्निरुद्धधृतो विष्टद्वि परमां गतः
 दानवानां सहस्राणि तस्मिन् सगरमूर्धनि । युगान्ताग्निरिवाचि-
 प्पान्दहमानो व्यराजत ॥ ४ ॥ तां दीप्यमानां महती नानापह-
 रणीर्दिताम् । सेनां बाणः समासाद्य धारयन् वाक्यमब्रवीत् ६
 लायवं समुपागम्य किमर्थं भयविवर्त्तवाः । दैत्यवंशसमुत्पन्नाः
 पलायवं महाहवात् ॥ ७ ॥ क्वचासिगदाशासखद्गचर्मपरशव-

वैशम्पायनजीने कहा, कि-तदनन्तर तीनों अग्नियोंकी समान
 वे तीनों फुर्तीके साथ गरुड़ पर सवार होकर रणमें युद्ध करने
 लगे ॥ १ ॥ तदनन्तर उन्होंने सब सेनाको बाणोंकी वर्षा करके
 द्यादिया, गरुड़जी पर बैठे हुए (वे सब) बलपूर्वक नाद करके
 राज्ञसोंको पीड़ित करने लगे ॥ २ ॥ सुदर्शन चक्र और लांगल
 के गिरनेसे तथा बाणोंकी वर्षासे पीड़ित होने पर दुरासद दानवों
 की घड़ीभारी सेना कोपमें भर गई ॥ ३ ॥ मुखे ईंधनसे मेरित
 पासफुसमें पड़े हुए अग्निकी समान बढ़ा हुआ कृष्णका बाणाग्नि
 कम्पित होकर चहुत बढ़गया वह लपटावाला बाणाग्नि रणके
 मुहाने पर सहस्रों दानवोंको भस्म कर प्रलयकालकी अग्निकी
 समान शोभा पाने लगा ॥ ४ ॥ अनेकप्रकारके बाणोंमें पीड़ित
 होती हुई उस जलनी हुई घड़ीभारी सेनाके पास बाणासुर पहुँचा
 और उसने उसको रोके हुए कहा, कि ६ तुम फुर्तीले होने पर
 भी भयके कारण क्यों घबड़ा रहे हो (अरे!) तुम दैत्यवंशमें उत्पन्न
 होने पर भी महायुद्धसे भागे जा रहे हो तुम आकाशनाभी हो तब

धान । उन्मत्तगोन्मत्तज्य मन्द्धन्ति किं भवन्तेऽन्तरिक्षाः ॥ ८ ॥
 स्वजातिं चैव भावं च हरसंमर्गमेतं च । पातगच्छित्तं गुन्तव्यमेवो
 बह्वर्षनस्थितः ॥ ९ ॥ एवमुन्वरितं वाक्यं शृण्वन्तस्मद्विचिंतयन् ।
 अपक्रामन्त ते सर्वे दानवा भयमोहिताः ॥ १० ॥ प्रमायणशेषं
 तु तदनीकपतिष्ठत । भग्नावशेषं युद्धाय पुनश्चक्रे मनस्तदा ११
 कुम्भाण्डो नाम वाणस्य सखामात्यश्च वीर्यवान् । भ्रमं स्व-
 चलपालोत्तर इदं वनगवत्रवीत् ॥ १२ ॥ एष वाणः स्थितो युद्धे
 शंकरोयं गृहस्तथा । किमर्थं बलमुन्मत्तज्य भवन्ती, यान्ति मोहिताः ।
 प्राणस्वक्त्वा पलायन्ते सर्वे दानवपुङ्गवाः ॥ १३ ॥ एषं कुम्भा-
 षडवाक्यं ते शृण्वन्तो भयविह्वलाः । एकान्ते भयवित्रस्ताः सर्वे

भी युद्धमें कबच तलवार गदा पास खड़े दाल और फरसोंको
 त्याग त्याग कर क्यों भागे जा रहे हो ॥ ८ ॥ तुम्हें अपनी जाति
 अपने भाव और महादेवके संमर्गका पान करके जाना नहीं चाहिये
 लो ! मैं यहाँ खड़ा हूँ । ९ । इस प्रकार कहे हुए वाक्यको सुनकर
 भी उस बातका कुछ भी विचार न कर भयसे मोहित हुए सब
 दानव भागने लगे ॥ १० ॥ उस समय उस सेनामेंसे केवल प्रमाय
 ही तहाँ खड़े रह गए भागनेसे बची हुई वाकी सेनाको साथमें
 लेकर वाणासुरने फिर युद्ध करनेका विचारकिया ११ कुम्भाण्ड
 नामवाला वीर्यवान् असुर वाणासुरका पित्र और मन्त्री था वह
 अपनी सेनाको भागती हुई देखकर यह बात कहने लगा, कि-१२
 युद्धमें यह वाणासुर खड़े हुए हैं और भगवान् शंकर तथा स्वामी
 कार्तिकेय भी खड़े हुए हैं फिर तुम किस कारणसे अपने बलका
 का (भरोसा) छोड़कर भयसे मोहित हो भागे जाते हो सब
 दानवपुङ्गव तो यणमें प्राण छोड़नेके बाद ही (परललोको) भागते
 हैं ॥ १३ ॥ वे भयविह्वल राजस कुम्भाण्डके वाक्यको इस प्रकार
 सुनकर भयभीत होकर दशों दिशों दिशाओंमेंको ही भागने लगे

(१०७२) * महाभारत हरिवंशपर्व २० [चतुर्विंशधिकशतमप

चान्ति दिशो दिश ॥ १४ ॥ भग्नं बलं ततो दृष्ट्वा कृष्णेनागत-
नेत्रसा । संरक्तनयनः स्थाणुर्युद्धाय पर्यवर्तत ॥ १५ ॥ बाणसं-
रक्षणं कर्तुं रथमास्थाय सुप्रभम् । देवः कुमारश्च तथा रथेनाग्नि-
समेन वै ॥ १६ ॥ नन्दीश्वरसमापृक्तं रथमास्थाय वीर्यवान् ।
सन्दर्ष्टीष्टपृष्टो रुद्रः पाधावन गतो हरिः ॥ १७ ॥ पिबन्निव तदा-
काशं सिंहयुक्तो महास्वनः । रथो भानि घनोन्मुक्तः पौर्णमास्यां
यथा शशी ॥ १८ ॥ ततो गणसहस्रैस्तु नानारूपैर्भयावहैः । नद-
ज्जिर्बिबिधान् नादान् रथो देवस्य शोभयन् ॥ १९ ॥ केचित् सिंह-
मुखस्तत्र तथा व्याघ्रमुखाः परे । नागाश्चेष्टुमुखास्तत्र प्रवेपुरति-
पीडिताः ॥ २० ॥ व्यालयज्ञोपवीताश्च केचित्तत्र महाचलाः ।

अपित तेजस्वी श्रीकृष्णके द्वारा सेनाको भग्न हुई देव कर भग-
वान् शंकरके नेत्र क्रोधसे लाल लाल हो गए और वह युद्ध करने
के लिये उतर आए । १४। बाणासुरकी रक्षा करनेके लिये शिव
और कार्तिकेय अग्निकी समान सुन्दर प्रभावाले रथमें बैठ कर
(तहाँ युद्ध करनेके लिये आए थे) ॥ १५ ॥ १६ ॥ वीर्यवान् शिव
नन्दीसे जुने हुए रथमें बैठकर अपने दोनों ओठोंको दवा जिर
श्रीकृष्ण थे उधर दौड़ गए ॥ १७ ॥ सिंहोंसे जुना हुआ और
और आकाशको पीतासा हुआ महादेवजीका बड़ापारी शब्द
करनेवाला रथ पौर्णमासीके दिन बादलोंसे छूटे हुए चन्द्रमाकी
समान प्रकाशित होने लगा १८ तदनन्तर अनेक प्रकारके रूपों
को धारण करनेवाले भगंकर सहस्रों गण जिसके चारों ओर
अनेक प्रकारका नाद कर रहे थे वह महादेवजीका रथ (दिशाओं
को) सुशोभित करने लगा १९ तहाँ पर सिंहकी समान मुखवाले
तथा व्याघ्रकी समान मुखवाले तथा हाथी घोड़े और ऊँटकी
समान मुखवाले शिवजीके गण अतिपीडित हो काँपने लगे २०
उनमें बहुतसे सर्पका यज्ञोपवीत धारण करनेवाले थे और बहुतसे

खरोट्टगजवक्राश्च अश्वग्रीवाश्च संस्थिताः ॥ २१ ॥ द्वागमा-
 जारिवक्राश्च मेघवक्रास्तथापरे । चीरिणः शिखिनश्चान्ये जटि-
 लोर्ध्वशिरोरुहाः ॥ २२ ॥ लगनाः परिपतन्ति स्म शंखदुन्दुभि-
 निःस्वर्णैः । वेचित् सौम्यमुखस्तास्तत्र दिव्यैः शस्त्रैरलंकृताः ॥ २३ ॥
 नानापुष्पकृतापीडा नानापहरणायुधाः ॥ वापना विकटश्चैव सिंह-
 व्याघ्रपरिच्छदाः ॥ २४ ॥ रुधिरार्द्रैर्महावक्त्रैर्महादंष्ट्रा बलिगिपाः ।
 देवैः सम्परिवार्याय महाशत्रुपमर्दनम् ॥ २५ ॥ लीलायमानास्तिष्ठन्ति
 संग्रामाभिमुखोन्मुखाः । ततो दिव्यं रथं दृष्ट्वा रुद्रस्पाङ्गिष्टकर्मणः
 कृष्णो गरुडमास्थाय ययौ रुद्राय संयुगे । वैजन्तेयस्थगास्पन्तमा-
 यान्तमग्रणी हरिम् ॥ २७ ॥ विज्याथ कुपितो वाणैर्नाराचानां

महाबली गधे ऊँट और घोड़ेकी समान मुखवाले थे और बहुत
 से घोड़ेकी समान गर्दनवाले गण तहाँ खड़े हुए थे ॥ २१ ॥ बकरे
 और बिलावकी समान मुखवाले मेंढेकी समान मुखवाले
 चीथड़ोंको पहिरनेवाले चोटीवाले जटावाले और खड़े हुए केशों
 वाले गण शंख और दुन्दुभियोंके स्वरसे एक दूसरेसे विपट कर
 गिरने लगे उनमें बहुतसे सौम्य मुखवाले थे और बहुतसे दिव्य
 अस्त्रोंसे अलंकृत थे । २२ । २३ । बहुतसे अनेकप्रकारके पुष्पोंका
 मुकुट धारण कर रहे थे और बहुतसे अनेकप्रकारसे प्रहार करने
 वाले आयुधोंको धारण कर रहे थे बौने विकट और सिंह तथा
 व्याघ्रके चर्मको ओढ़नेवाले बड़ी २ हाठों वाले बलिदानकी मिय
 समझनेवाले गण अपने रक्तसे गीले महामुग्धोंको ले बड़े भारी
 शत्रुको भी मसलने वाले महादेवजीको घेर कर संग्रामके लिये
 उन्मुख हो खेलासा करते हुए तहाँ खड़े थे, तब तो सरलतासे कर्म
 करनेवाले रुद्रके दिव्यरथको देख कर ॥ २३ ॥ २४ ॥ कृष्णजी
 गरुड पर बैठ कर यद्धर्म रुद्रके पासको चले, गरुड पर बैठ कर
 वाणोंको फेंकते हुए अग्रणीय हर जब बढ़नेलगे २७ तब क्रोधमें

(१०७४) * महाभारत-हरिदंशपर्व २ * [चतुर्विंशाधिकशततम

शतेन सः । स शरैरर्दितस्तोन इरेणाक्लिष्टकर्मणा ॥ २८ ॥ हरि-
र्जग्राह कुपितो ह्यस्त्रं पार्जन्यमुत्तमम् । मचचाल ततो भूमिर्विष्णु-
रुद्रमपीडिता ॥ २९ ॥ नागारचोर्ध्वमुखास्तत्र विचेलुरभिपीडिताः ।
पर्वताः पतितस्तत्र जलमाराभिराप्लुताः ॥ ३० ॥ वेविन्मुमुचिरे
तत्र शिखराणि सपन्तवः । दिशश्च प्रदिशश्चैव भूमिराकाशमेव
च ॥ ३१ ॥ प्रदीप्तानीव दृश्यन्ते स्थाणुकृष्णसमागमात् । सम-
न्ततरुच निर्घाताः पतन्ति धरणीतले ॥ ३२ ॥ शिखरचैवा-
शिखान् नादान् नदन्ते भीमदर्शनाः । वासवश्चानदन् घोरं रुधिरं
चाप्यवर्षत ॥ ३३ ॥ उल्का च वाणसैन्यस्य पुच्छेनावृत्त्य तिष्ठति ।
मन्त्रौ मारुतरनापि ज्योतीष्याकुत्ततामियुः ॥ ३४ ॥ मभाहीना-

भरे हुए महादेवजीने उनको नाराच नामके सौ बाणोंसे घायल
किया सरलतासे कर्म करने वाले शिवके बाणोंसे पीड़ित हुए हरि-
ने क्रोधमें भरकर श्रेष्ठ अस्त्र पार्जन्यको उठा लिया; तब तो पृथिवी
विष्णु और रुद्रसे पीड़ित होती हुई काँसने लगी । २८ । २९ ।
तहाँ पर पीड़ा पाकर हाथी ऊपरको मुग्न करके विचलित होने
लगे और तहाँके पर्वत जलप्राराश्रोंसे आस्रुत होकर गिरने लगे ३०
बहुतसे पर्वत अपने शिखरोंको गिराने लगे- शिव और जनार्दन
के समागमके समय दिशा, विदिशा, भूमि और आकाश जलते
हुएसे दीखने लगे और पृथ्वी पर चारों ओर उल्काएँ गिरने
लगीं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ भयंकर आकृति वाली गीदड़ियें अशिव
(शकलयाणकारी) शब्दोंको करने लगीं, और इन्द्र भी भयंकर
गर्जना कर पृथ्वीतलमें भयंकर रक्तकी वर्षा करने लगा ॥ ३३ ॥
और उल्का वाणामुरली सेनाके पीछे गिरी वायु चलने लगा और
नक्षत्र व्याकुल होने लगे ॥ ३४ ॥ औपधियें मभारहित हो गईं
और आकाशचारियोंने आकाशमें विचरण करना बन्द कर दिया,
इसी समय त्रिपुरनाशकको मोहमें पड़ता हुआ देख कर ब्रह्माजी

स्तर्योपध्वो न चरन्तपन्तरिक्षाः । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सर्वदेव-
 गणैर्भूतः ॥३५॥ त्रिपुरातं कं मुह्यन्तं ज्ञात्वा रुद्रमुपागमत् । गन्धर्वा
 प्सरसश्चैव यज्ञा विद्याधरास्तथा । सिद्धचारुणसंघारश्च पश्य-
 न्तोय दिवि स्थिताः । ततः पार्जन्यगस्त्रं तत् क्षिप्रं रुद्राय विष्णुना
 ययो ज्वलन्नथ तदा यतो रुद्रो रथे स्थितः । ततः शतसहस्राणि
 शराणां नतगर्वणाम् ॥३६॥ निपेतुः सर्वतो दिग्भ्यो यतो हररथः
 स्थितः । अधाग्नेयं महारौद्रमस्त्रगस्त्रविदां वरः ॥ ३६ ॥ सुमोच
 रुपिनो रुद्रस्तदद्भुतमिवाभवत् । ततो निशीर्णदेहास्ते चत्वारोऽपि
 सगन्ततः ॥४०॥ नादृश्यन्त शरैश्छन्ना दक्षगानाश्च वन्दिना ।
 सिंहनादं ततश्चक्रुः सर्वं पद्मासुरोत्तमाः ॥ ४१ ॥ हतोयमिति
 विज्ञाय आग्नेयास्त्रेण नै तदा । ततस्तद्विमहिस्वाजौ ह्यस्त्रमस्त्र
 विदां वरः ॥४२॥ जग्राहं वारुणं सोऽस्त्रं वासुदेवः प्रतापवान् ।

सब देवताओंको सायमें लेकर रुद्रके पास पहुँचे, गन्धर्व अप्सरा
 यज्ञ विद्याधर और सिद्ध चारणोंके संघ भी आकाशमें खड़े हो
 गए, तदनन्तर विष्णुने रुद्रके ऊपर पार्जन्य अस्त्र फेंका ३५ ३७
 वह प्रदीप्त अस्त्र जहाँ रुद्रका रथ खड़ा था, तहाँगो चला, उस
 समय जहाँ पर शिवका रथ था तहाँ पर दिशा और निदिशाओंमें
 से शिवके रथ पर नमी हुई गाँठ वाले सहस्रों बाण पड़ने लगे,
 तदनन्तर अस्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ रुद्रने क्रोधमें भर कर महाभयंकर
 आग्नेय अस्त्र फेंका, यह एक अचरगनीसी बात हुई, तब तो उन
 चारोंका शरीर चारों ओरसे निशीर्ण होगया ॥ ३६-४० ॥ और
 वह अग्निसे जलनेके कारण और अस्त्रांसे डरनेके कारण सटश्य
 होगया, तब राय असुरसत्तम श्रीकृष्णको आग्नेय अस्त्रसे गरा
 हुआ जान कर सिंहनाद करने लगे, अस्त्र जानने वालोंमें श्रेष्ठ
 प्रतापी वासुदेवने युद्धमें उस अस्त्रको भेला कर वारुणास्त्रको उठा
 लिया, जब वासुदेवने अतितेजस्वी वारुणास्त्रको फेंका ४१-४३

(१०७६) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [चतुर्विंशधिकशततम

प्रपृक्ते वासुदेवेन वारुणास्त्रेऽतितेजसि ॥ ४३ ॥ आग्नेयं प्रशमं
यानमस्त्रं वारुणतेजसा । तस्मिन् प्रतिहते त्वस्त्रे वासुदेवेन संयुगे
पैशाचं राक्षसं रौद्रं तथैवागिरसम्भवम् । मृगोचास्त्राणि चत्वारि
युगान्ताग्निनिभानि वै ॥४५॥ वायव्यमथ सावित्रं वासवं मोहनं
तथा । अस्त्राणां वारुणार्थाय वासुदेवो व्यमुञ्चत ४६ अस्त्रैश्चतु-
र्भिश्चत्वारि वारयित्वाशु माधवः । मृगोच वैष्णवं सोस्त्रं व्यादि-
तास्यान्तकोपमम् ॥ ४७ ॥ वैष्णवास्त्रे प्रयुक्ते तु सर्व एवासुरो-
त्तमाः । भूतयज्ञगणारश्चैव वाणानीकं च सर्वशः ॥४८॥ दिशः
सर्वाः प्राद्रवन्त भयमोहेन विक्लवाः । प्रमाथगणभूयिष्ठे दीर्घे
सैन्ये महासुरः ॥ ४९ ॥ निर्जगाम तनो वाणो युद्धायाभिमुख-
स्त्वरन् । भीमप्रहरणौघोरैर्दैत्यैश्च सुमहाबलैः । वृत्तो महारथी-
र्वीरैर्वज्रीव सुरसत्तमैः ॥ ५० ॥ वैशम्पायन उवाच । जपैश्च

तव वारुणास्त्रके तेजसे आग्नेयास्त्र शान्त हो गया, जब युद्धमें
वासुदेवने उस अस्त्रको शान्त कर दिया । ४४। तब (महादेवने)
प्रलयकालकी अग्निकी समान-पैशाच राक्षस रौद्र और अंगिर-
सम्भव नामक चार अस्त्र छोड़े ॥ ४५ ॥ तब वासुदेवने भी उन
अस्त्रोंको हटानेके लिए वायव्य सावित्र वासव और मोहन नामक
चार वाण छोड़े । ४६। इसप्रकार माधव चार अस्त्रोंसे चारों अस्त्रों
को रोक कर, मुल फाड़ने वाले कालकी समान वैष्णवास्त्रको
छोड़ने लगे ४७ वैष्णवास्त्रके प्रयोग करते ही सब असुरसत्तम,
भूत और यज्ञोंके गण तथा वाणासुरकी सब सेना भयसे घबड़ा
कर चारों दिशाओंमेंको भागने लगी जिसमें बहुतसे प्रमाथगण
थे, ऐसी सेना जब भाग गई, तब महाराक्षस वाणासुर भयंकर
आयुधधारी महाबली, महारथी, राक्षसोंसे देवताओंसे घिरे हुए
इन्द्रकी समान घिर कर, युद्ध करनेके लिए अभिमुख होकर फुर्ती
से चल पड़ा ॥४८-५०॥ वैशम्पायनजीने कहा, कि-उस समय

होमैश्च तथौपधीभिर्महात्मनः स्वस्त्ययनं प्रनक्तुः । स तत्र वस्त्राणि
 शुभाश्च गावः फलानि पुष्पाणि तथैव निष्कान् ॥५१॥ बलेः
 सुतो ब्राह्मणेष्वयः प्रयच्छन् विराजते तेन तथा धनेशः । सहस्र-
 सूर्यो बहुकिंकणीकः परार्ध्यजाम्बूनदरत्नचित्रः ॥ ५२ ॥ सहस्र-
 चन्द्रायुततरकरश्च रथो महानग्निरिवावभाति । तमास्थितो दानव-
 संगृहीतं महाध्वजं कामुकभृक् स बाणः ॥ ५३ ॥ उद्वर्तयिष्यन्
 यदुपुङ्गवानामतीव रौद्रं स विभर्ति रूपम् । स मन्युमान् वीररथो-
 घसंकुलो विनिर्घषी तान् प्रतिदैत्यसागरः ॥ ५४ ॥ वातमवृद्धस्तु
 तरङ्गसंकुलो यथार्णवे लोकाविनाशानाय । भीमानि संत्रासरु-
 र्वपुभिस्तान्प्रग्रतो भान्ति बलानि तस्य ॥५५॥ महारथान्युच्छ्रित-

महात्मा जब होय और औपधियोंसे (बाणासुरका) स्वस्तिवाचन
 करने लगे, उस समय बलिका पुत्र बाणासुर उनको वस्त्र शुभ
 गौएँ फल पुष्प और सिक्कोंका दान करता हुआ धनेश (बकण)
 की समान मतीत होता था, सहस्र सूर्यो (की फुल्लियों) वाला,
 बहुतसे घूँघुनओं वाला और बहुमूर्त्य सुवर्ण और रत्नोंसे चित्रित
 और चन्द्रमाकी सहस्र फुल्लियोंवाला, आयुभ तथा तारोंकी
 फुल्लियों) वाला बड़ा भारी रथ अग्निकी समान शोभा पाने
 लगा, धनुषधारी बाणासुर राक्षसोंसे पकड़े हुए उस महाध्वज
 रथ पर बैठ गया ॥५१॥५३॥ उसने यदुपुंगवोंको डरानेके लिए
 भयंकर रूप धारण कर लिया, क्रोधमें भरा हुआ वीर और रथों
 के ओघसे भराहुआ दैत्यसागर उन चारोंकी ओरफे चला ५४
 वायुपे हिलोड़े' लेताहुआ लहरोंमें भराहुआ समुद्र जिस प्रकार
 संसारका नाश करनेके लिये चले(इसीप्रकार वह दैत्यसागर चला)
 बाणासुरकी सेनाओंके अग्रभाग त्रास देनेवाले शरीरोंसे भयंकर
 मतीत होते थे ५५ जिसमें धनुषोंको उठानेवाले महारथ थे ऐसे
 सेनादल पर्वतोंवाले वनोंकी समान दीखते थे इसप्रकार संग्रामका

(१०७८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [पञ्चविंशधिकशततम

कामुर्कानि सपरितानीव वनानि राजन् । विनिःसृतः सागरतोय-
र्वासादत्पद्भुतश्नाहवदुष्टकामः ॥ ५६ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे निष्णुपर्वणि रुद्रकृष्णयुद्धे
चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥

वैशम्पायन उवाच । अन्धकारिकृते लोके गदीप्ते ऽपम्बके तथा ।
न नन्दी नापि च रथो न रुद्रः प्रत्यदृश्यत ॥ १ ॥ द्विगुणं दीप्त-
देहस्तु रोपेण च बलेन च । त्रिपुरान्तकरो वाणं जग्राह स चतु-
र्भुजम् ॥ २ ॥ सन्दयत् कामुर्कञ्चैव क्षेप्तुकामस्त्रिलोचनः । विज्ञातो
वासुदेवेन चित्तज्ञेन महात्मना ॥ ३ ॥ जृम्भणं नाम सोऽप्यस्त्रं
जग्राह पुरुषोत्तमः । हरं संजृम्भयामास क्षिप्रकारी महाबलः । ४ ।
सशरः सधनुश्चैव हरस्तेनाशु जृम्भितः । संज्ञां न लेभे भगवान्
विजेताऽसुररत्नसाम् । सशरं सधनुष्कं च दृष्ट्वात्मानं विजृम्भितम्

दृपित मनोरथ करनेवाला अति अद्भुत वाणासुर समुद्रके जलके
समीपके स्थानसे चलदिवा था ॥ ५६ ॥ एकसौ चौबीसवाँ
अध्याय समाप्त ॥ १२४ ॥

वैशम्पायनजीने कहा, कि-जब संसारमें अन्धकार फैल गया
और भगवान् शंकर प्रदीप्त होनेलगे तब नन्दी रथ इत्यादि कुछ
भी नहीं दीखता था १ तो रोप और बलके कारण जिनका शरीर
दुगुना चमक रहा था उन त्रिपुरका नाश करनेवाले शिवने चार
मुसवाले वाणको उठा लिया २ फिर त्रिलोचनने उसको धनुष
पर चढा कर छोड़ना चाहा, चित्तके भावोंको जाननेनाले महात्मा
वासुदेवने इस बातको जान लिया ३ तदनन्तर पुरुषोत्तमने जृम्भण
नामके अस्त्रको उठालिया और फुर्तीले महाबली वासुदेव हरको
जृम्भित करना चाहने लगे ॥४॥ तब तो उस वाणसे धनुष और
वाणधारी शिवजी जंगमाई लेने लगे, और असुर तथा राजस
विजेता भगवान् शिवका दोश ठिकाने न रह सका आत्मस्व-

बलोन्गत्तोथ बाणोसौ शर्व चोदपतेऽसकृत् । ततो ननाद भूतात्मा
स्निग्धगम्भीरया गिरा ॥ ६ ॥ अध्यापयामास तदा कृष्णः शंखं
महाबलः । पाञ्चजन्यस्य घोषेण शार्ङ्गविस्फुगितेन च ॥७॥ देवं
विजृम्भितं दृष्ट्वा सर्वभूतानि तत्रसुः । एतस्मिन्नरे तत्र रुद्रस्य
पार्षदा रणे ॥ ८ ॥ मायायुद्धं समाश्रित्य प्रद्युम्नं पर्यचारयन् ।
सर्वास्तु निद्राघशगान् कृत्वा गकरकेतुमान् ॥९॥ दानवान् नाश-
यत्तत्र शरजालेन वीर्यवान् । प्रमाथगणभुगिष्ठास्तत्र तत्र महाव-
लान् ॥१०॥ ततस्तु जृम्भमाणस्य देवस्याविलष्टकर्मणः । ज्वाला
मादुरभूदक्लादहतीव दिशो दश ॥ ११ ॥ ततस्तु धरणी देवी
पीडयमाना महात्मभिः । ब्रह्माणं विश्वधातारं वेपमानाभ्युपा-
गगत् ॥१२॥ पृथिव्युवाच । देवदेव महाबाहो पीडयामि परमौ

रूप (शिवको धनुष और बाण सहित जंभाई लेतेहुए देखकर) ५
बलसे भरा हुआ बाणासुर शिवजीको बाण २ विप्रविरित करने
लगा, तब भूतात्मा (कृष्ण) स्निग्ध और गम्भीर बाणीमें गर्जने
लगे ६ तदनन्तर महाबली कृष्ण शंखको बजाने लगे, पाञ्चजन्य
के घोपसे और शार्ङ्ग धनुषके कड़ाकेसे शिवजी जंभाई लेते हुए
देखकर सब प्राणी भयभीत होनेलगे इसी समय शिवके पार्षदोंने
माया युद्धका आश्रय लेकर रणमें प्रद्युम्नको घेर लिया मकरकी
ध्वजावाले वीर्यवान् प्रद्युम्न जिनमें बहुतसे प्रमाथ भर रहे थे ऐसे
महाबली दानवोंको निद्रा करके जहाँ । तहाँ बाणोंके जालसे
मारने लगे । ७ । १० । तदनन्तर सरलतासे कर्म करने वाले
जंभाई लेतेहुए महादेवजीके मुखमेंसे दशों दिशाओंको भस्म करती
हुई ज्वाला प्रकट हुई ॥११॥ तदनन्तर पृथिवीदेवी महात्माओंसे
पीड़ा माने लगी और कौण्ठी २ विश्वको रचनेवाले ब्रह्माजीकी
शरणमें पहुँची १२ पृथिवीने कहा, कि-हे महाभूत देव देव । मैं
बड़े भारी आज्ञा (भार) से पीड़ा पा रही हूँ मैं श्रीकृष्ण और

(१०८०) * महाभारत हरिवंशपर्व २ * [पञ्चविंशाधिकशततम

जसा । कृष्णरुद्रभंराक्रान्ता भविष्यैकार्णवा पुनः ॥१३॥ अवि
पहामिमं भारं चिन्तयस्व पितामह । लक्ष्मीभूता यथा देव धारयेयं
चंराचरम् ॥ १४ ॥ ततस्तु कारयपीं देवीं प्रत्युवाच पितामहः ।
मुहूर्तं धारयात्मानमाशु लक्ष्मी भविष्यसि । १५ ॥ वैशम्पायन
उवाच । दृष्ट्वा तु भगवान् ब्रह्मा रुद्रं वचनमब्रवीत् । सृष्टो महा-
सुरवधः किं भूयः - परिरच्यसे ॥१६॥ न च युद्धं महाबाहो तव
कृष्णेन रोचते । न च बुध्यसि कृष्णं त्वमात्मानं तु द्विधा कृतम्
ततः शरीरयोगाद्धि भगवानभ्ययः प्रभुः । प्रविश्य पश्यते कृत्स्नां-
स्त्रींज्जलोकान् सचराचरान् ॥१७॥ प्रविश्य योगं योगात्मा वरां-
स्ताननुचिन्तयन् । द्वारवत्या यदुक्तं च तदनुस्मृत्य सर्वशः । जगाद
नोत्तरं किञ्चिन्नितृत्तोऽसौऽभवत्तदा ॥ १८ ॥ आत्मानं कृष्णयो-

रुद्रके भारसे दब कर फिर एक समुद्रमयी ही होजाऊँगी । १३
हे पितामह! आप मेरे इस न सहेजाने वाले भारकी ओर ध्यान
दीजिये और हे देव ! (इस बातका विचार करिये), जिसप्रकार
मैं हलकी होकर चराचरको धारण करसकूँ ॥१४॥ तब कारयपीं
देवीने ब्रह्माजीने उत्तर दिया, कि-तू अपनी आत्माको ज्ञानपर
तक धारण करे तो शीघ्र ही हलकी होजावेगी १५ वैशम्पायनजी
ने कहा, कि-भगवान् ब्रह्माजीने सोच यह वचन कहा,
कि-आपने ही बड़े २ राक्षसोंका वध रचा है फिर आप इनकी
रक्षा क्यों कर रहे हैं ॥१६॥ हे महाशुन ! तुम्हारा कृष्णके साथ
लड़ना अच्छा नहीं लगता तुम एक आत्मा दो शरीर पने हुए क्या
कृष्णको नहीं पहिचानते हो ? तदनन्तर वह प्रभु भगवान्
शिव शरीरमें स्थितियोगके द्वारा उसमें मवेश करके अर्थात् ध्यान
धर कर चराचर प्रिलोकीको देखने लगे १७ योगात्मा शिवने
योगमें घुस कर द्वारकामें गिन वननोंको कहा था उन सब वरों
का चिन्तन करके कुछ भी उत्तर न देसके और युद्धसे निवृत्त

निस्थं पश्यते लोकयोनिजम् । ततोऽनिःसृत्य रुद्रस्तु न्यस्तवादोऽभवन्मृधे ॥ २० ॥ ब्रह्माणं चात्रवीदुद्रो न योत्स्ये भगवन्निति । कृष्णेन सह संग्रामे लक्ष्मी भवतु मेदिनी ॥ २१ ॥ ततः कृष्णोथ रुद्रश्च परिप्लव्य परस्परम् । परां प्रीतिमुपागम्य संग्रामादपजग्मतुः ॥ २२ ॥ न च तौ पश्यते केचिद्योगिर्नो योगपागतौ । एकां ब्रह्म तथा कृत्वा पश्यंल्लोकान् गितामहः ॥ २३ ॥ उवाचैतत् समुद्दिश्य मार्कण्डेयं सनारदम् । पार्श्वस्थं परिपवच्छ ज्ञात्वा कौ दीर्घदर्शिनम् ॥ २४ ॥ पितामह उवाच । मन्दरस्य गिरेः पार्श्वे जलिन्यां भवकेशवी । रात्रौ स्वप्नान्तरे ब्रह्मन् मया दृष्टौ हराच्युतौ २५

होगप १६ (कृष्णयोनिस्थ) फलकी समान कृष्णके योनि अर्थात् कारण भूमिस्थानीय शुद्ध परब्रह्म कृष्णकी और अपनीभी शुद्ध ब्रह्मके एक अंगभावको एक साथ देख कर अर्थात् दोनोंके एक कारणको देख कर स्वपत्यमात्माके साथ अपना विरोध होना असंभव समझ कर रुद्रने योग समाधिसे) निकलनेके बाद युद्धमें बाद करना छोड़ दिया ॥ २० ॥ फिर रुद्रने ब्रह्माजीसे कहा, कि-हे भगवन् ! मैं कृष्णके साथ युद्ध नहीं करूंगा अब पृथिवी हलकी होजाय ॥ २१ ॥ तदनन्तर कृष्ण और रुद्रने परस्पर आलिगन किया फिर वे परम प्रसन्न होकर संग्रामसे चले गए २ योगका साधन करनेवाले एक स्वरूप इन दोनों योगियों कोई नहीं देख सकता लोकपितामह ब्रह्माने योगको धारण कर इस बातको देखा था ॥ २३ ॥ और इस बातको लक्ष्यमें रखकर उन्होंने पासमें बैठे हुए सनारदजीको और मार्कण्डेयजीको दीर्घदर्शी जान कर उनसे यह बात बूझी ॥ २४ ॥ हे ब्रह्मन् ! मैंने रात्रिमें स्वप्नमें मन्दराचलके समीप कमलिनीके भीतर शिव और केशवको देखा था जहाँ मैंने शिवजीके विष्णुके रूपमें देखा था और विष्णु ५ शिवके रूपमें देखा था ॥ २५ ॥ शिवको हाथमें शंख चक्र

हरं च हरिरूपेण हरिं च हररूपिणम् । शंखनक्रगदापाणिं पीता-
म्बरधरं हरम् ॥ २६ ॥ त्रिशूलपट्टिशधरं व्याघ्रनर्मरं हरिम् ।
गरुडस्थं चापि हर हरि च वृषभध्वजम् ॥ २७ ॥ विस्मयो मे
मदान् ब्रह्मन् दृष्ट्वा तत्परमानन्दम् । एतदाचक्ष्व भगवन् याथा-
तथ्येन सुव्रत ॥ २८ ॥ मार्कण्डेय उवाच । शिवाय विष्णुरूपाय
विष्णवे शिवरूपिणो गथान्तरं न पश्यामि तेन तौ दिशतः शिवम्
आदिगन्धनिधनमेतदत्तमव्यगम् । तदेव ते प्रवक्ष्यामि रूपं हरि-
हरात्मकम् ॥ ३० ॥ यो विष्णुः स तु यो रुद्रो यो रुद्रः स
पितामहः । एका मूर्तिस्त्रयो देवा रुद्रविष्णुपितामहाः ॥ ३१ ॥
वरदा लोककर्तारो लोकनाथाः स्वयम्भुवः । अर्धनारीश्वरारस्ते तु
व्रतं तीव्रं सगास्थिताः ॥ ३२ ॥ यथा जले जलं क्षिप्तं जलमेव तु
और गदाको धारण क्रिये हुए तथा पीताम्बर ओढ़े हुए देखा
था ॥ २६ ॥ और विष्णुको व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए और त्रिशूल तथा
पट्टिशको धारण क्रिये हुए देखा था, शिवजी गरुड पर चढ़ रहे
थे और विष्णु वृषभजी, ध्वजाको धारण कर रहे थे २७ हे ब्रह्मन् !
इस परम अद्भुत बातको देख कर मुझे बड़ा भारी विस्मय हो रहा
है, हे सुव्रत भगवन् ! इसको टीका २ रीतिसे कहिये २८ मार्कण्डेयजी
ने कहा, कि-विष्णुरूप शिवके लिये और शिवरूप विष्णुके लिये
(गणाम है) में उनमें भेद नहीं देखना हूँ इस कारण वह मेरा
कल्याण करें २९ आदि गन्ध और अन्त रहित अक्षर अव्यय इस
हरिहरात्मक रूपको मैं तुमसे कहता हूँ जो विष्णु है वह रुद्र है जो
रुद्र है वह पितामह है, मूर्ति (आत्मा) एक है और रुद्र विष्णु
पितामह तीन देव हैं ३१ यह वर देने वाले हैं लोक रचनेवाले हैं
लोकके स्वामी और स्वयम्भू हैं, और यह अर्धनारीश्वर तीनों
देव तीव्र व्रतमें परागण रहते हैं ॥ ३२ ॥ जिस प्रकार जल जलमें
को मिश्रित जल ही होता है इसी प्रकार रुद्रमें पविष्ट हुए

१. तु तद्भवेत् । रुद्रं विष्णुः प्रविष्टस्तु तथा रुद्रमयो भवेत् ॥ ३३ ॥
 २. अग्निमग्निः प्रविष्टस्तु अग्निरेव यथा भवेत् । तथा विष्णुं गवि-
 ३. ष्टस्तु रुद्रो विष्णुमयो भवेत् ॥ ३४ ॥ रुद्रमग्निमयं नित्याद्विष्णुः
 ४. सोमात्मकः स्मृतः । अग्नीषोपात्मकं चैव जगत् स्थावरजङ्गमम् ३५
 ५. कर्तारो चापहर्तारो स्थावरस्य चरस्य तु । जगतः शुभकर्तारो गभ-
 विष्णु महेश्वरौ ॥ ३६ ॥ कर्तृकारणकर्तारो कर्तृकारणकारकौ ।
 भूतभोग्यभनौ देवौ नारायणमहेश्वरौ ॥ ३७ ॥ एते चैव प्रवर्षन्ति
 भान्ति वान्ति सृजन्ति च । पतत् परतरं युगं कथितं ते वितापह
 यश्चैनं पठने नित्यं यश्चैनं शृणुयान्नरः । प्राप्नोति परमं स्थानं
 विष्णुरुद्रमसादजम् ॥ ३६ ॥ देवौ हरिहरौ स्तोत्रे ब्रह्मणा सह

विष्णु रुद्रमय ही होजाते हैं ॥३३॥ अग्निमें प्रविष्ट हुआ अग्नि जिस प्रकार अग्नि होजाता है इसी प्रकार विष्णुमें प्रविष्ट हुए रुद्र विष्णुमय हो जाते हैं ३४ रुद्रको अग्निमय जाने विष्णु सोमात्मक कहलाते हैं, यह स्थावर जंगमात्मक जगत् अग्नीषोपात्मक अर्थात् भोक्तृ ऽऽत्मात्मक हैं ॥३५॥ यह दोनों स्थावर और चरजगत्के कर्ता और नाश करनेवाले हैं जगत्का कल्याण करनेवाले हैं प्रयाश्चान् और महेश्वर हैं ३६ कर्ता (द्विपयगर्भ, और कारण (गहाभूतों) के रचनेवाले हैं और उनके कारक भी हैं अर्थात् उनसे कर्म कराने वाले भी हैं यह दोनों नारायण और महेश्वर देव भूत भविष्य और वर्तमान रूप हैं ॥३७॥ ये (ब्रह्मा विष्णु और रुद्र मेघरूपसे) वर्षा करते हैं (वायुरूपसे) बहते हैं (सूर्य-रूपसे प्रकाशित होते हैं और यह रचना करते हैं हे वितापह ! यह आपसे (देवता-त्रयात्मक) परमयुक्त बात कहती ॥ ३८ ॥ जो मनुष्य इनका सर्वदा पाठ करता है और जो मनुष्य इसके सर्वदा सुनता है वह पुण्य विष्णु और रुद्रके प्रसादसे मिलनेवाले परम स्थानको पाया है ॥ ३६ ॥ मैं ब्रह्मानीके साथ

१०८) * महाभारत हरिवंशपर्व २ * पञ्चविंशधिकशततम

सङ्गती । एतौ च परमां देवीं जगतः प्रपन्नाप्ययौ ॥४०॥ रुद्रस्य
परमो विष्णुर्विष्णोश्च परमः शिवः । एक एव द्विनाभूतो लोके
चरति नित्यशः ॥ ४१ ॥ न विना शंकरं विष्णुर्न विना केशवं
शिवः । तस्मादेकत्वमायातौ रुद्रोपेन्द्रौ तु तौ पुरा । नमोः रुद्राय
कृष्णाय नमः संहतचारिणे ॥४२॥ नमः पडर्धनेत्राय सद्दिनेत्राय
वै नमः । नमः पिंगलनेत्राय पद्मनेत्राय वै नमः ॥ ४३ ॥ नमः
कुमारगुरवे प्रद्युम्नगुरवे नमः । नमो धरणीधराय गङ्गाधराय वै
नमः ॥४४॥ नमो मयूरपिच्छाय नमः केयूरधारिणे । नमः कपाल-
गालाय वनमालाय वै नमः ॥ ४५ ॥ नमस्त्रिशूलहस्ताय चक्र-
हस्ताय वै नमः । नमः कनकदण्डाय नमस्ते ब्रह्मदण्डिने । ४६।
नमश्मनिवासाय नमस्ते पीतवामसे । नमोस्तु लक्ष्मीपतये उग्रायः
पतये नमः ॥ ४७ ॥ नमः खट्वाङ्गाराय नमो मुशालधारिणे ।

मिले हुए हरि और हरदेवकी स्तुति करना हू यह दोनों परमदेव
जगत्की उत्पत्ति और प्रलय करनेवाले है विष्णु रुद्रसे श्रेष्ठ है
और शिव विष्णुसे श्रेष्ठ है यह एक ही सर्वदा ससारमें विचरण
करते है ४० शंकरके बिना विष्णु नहीं रह सकते और केशवके
बिना शिव नहीं रह सकते क्योंकि यह रुद्र और उपेन्द्र पहले एक
ही थे, गिनकर विचरण करनेवाले कृष्णके लिये मणाम है रुद्रके
लिए मणाम है ४२ द्यः के आधे ती । नेत्रवालेके लिये मणाम है
दो नेत्रवालेके लिये मणाम है पीले नेत्र वालेके लिए मणाम है ४३
स्कन्दके पिताका नमस्कार है, प्रद्युम्नके पिताकी मणाम है पृथ्वी-
धारीकी मणाम है, गंगाधारीकी मणाम है ४४ मयूरपुच्छके लिये
मणाम है केयूरधारीके लिये मणाम है कपालमालीके मणाम है
वनमालीके मणाम है ४५ त्रिशूलहस्तके मणाम है चक्रहस्तके
मणाम है कनकदण्ड के मणाम है ब्रह्मदण्डीके मणाम है ४६
चमटा ओढ़नेवालीको मणाम है पीतवस्त्र पहिरनेवालेको मणाम है

नमो भस्मांगरागाय नमः कृष्णांगधारिणे ॥ ४८ ॥ नमः रम-
 शानवासाय नमः सागरवासिने । नमो वृषभवाहाय नमो गरुड-
 वाहिने ॥ ४९ ॥ नमस्त्वनेकरूपाय भवरूपाय चै नमः । नमः
 प्रलयकर्त्रे च नमस्त्रैलोक्यधारिणे ॥ ५० ॥ नमोस्तु सौम्यरूपाय
 नमो भैरवरूपिणे । विरूपाक्षाय देवाय नमः सौम्येक्षणाय च ।
 दत्तयज्ञविनाशाय बलेर्नियमनाय च । नमः पर्वतवासाय नमः
 सागरवासिने ॥५१॥ नमः सृष्टिपुण्याय त्रिपुरधनाय चै नमः ।
 नमोस्तु नरकघ्नाय नमः कामाङ्गनाशिने ॥ ५३ ॥ नमस्त्वन्धक-
 नाशाय नमः कैटभनाशिने । नमः सहस्रहस्ताय नमोऽसंख्येय-
 वाहवे ॥ ५४ ॥ नमः सहस्रशीर्षाय बहुशीर्षाय चै नमः । दामो-
 दराय देवाय मुञ्जमेलत्तिने नमः ॥ ५५ ॥ नमस्ते भगवन्निवृणो

लक्ष्मीपतिके प्रणाम है उपाके स्त्रीपीठो नमस्कार है ४७ खट्वाङ्ग-
 धारीको प्रणाम है भूमलधारिणो नमस्कार है भस्मांगरागको प्रणाम
 है कृष्णाङ्ग-धारीका प्रणाम है ॥४८॥ रमशानमें रहनेवालेको
 नमस्कार है समुद्रमें रहनेवालेको प्रणाम है वृषभकी सवारीवाले
 को नमस्कार है गरुडकी सवारीवालेको प्रणाम है . ९ अनेक रूप
 वाले को प्रणाम है भवरूपको प्रणाम है प्रलय करनेवालेको प्रणाम
 है त्रिलोकीके धारण करने वालेको प्रणाम है ५० सौम्यरूपवालेको
 प्रणाम है भैरवरूपको प्रणाम है विरूपाक्षको प्रणाम है सौम्य नेत्र
 वालेको प्रणाम है ५१ दत्तके यज्ञका नाश करने वाले बलिको
 चोर्नेवाले पर्वतवासी और सागरवासीको प्रणाम है ५२ देवता
 ओके शत्रुओंका नाश करनेवालेको और त्रिपुरका नाश करने
 वालेको प्रणाम है नरकासुरका नाश करनेवालेको प्रणाम है और
 कामदेवके शरीरको नष्ट करने वालेको प्रणाम है अन्धकासुरके
 नाशको प्रणाम है कैटभहस्ताको प्रणाम है सहस्र हाथवालेको
 नमस्कार है असंख्य भुजावालेको प्रणाम है ॥५४॥ सहस्र मस्त-

(१०८६) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * पञ्चविंशाधिकशततम

नमस्ते भगवञ्छिव । नमस्ते भगवते देव नमस्ते देवपूजित ॥ ५६ ॥
नमस्ते कर्मणां कर्म नमोऽमितपराक्रम । हृषीकेश नमस्तेस्तु स्वर्ण-
केश नमोऽस्तु ते ॥ ५७ ॥ इमं स्तवं यो रुद्रस्य विष्णोश्चैव महा-
त्पनः । समे ष ऋषिभिः सर्वैः स्तुतौ स्तौति महर्षिभिः ॥ ५८ ॥
व्यासेन वेदिदुपा नारदने च धीपता । भारद्वाजेन गर्गण विश्वामि-
त्रेण वै तथा ॥ ५९ ॥ अगस्त्येन पुलस्त्येन धौम्येन तु महा-
त्पना । य इदं पठते नित्यं स्तोत्रं हरिहरात्मकम् ॥ ६० ॥ अरोगो
बलवान्श्चैव जायते नात्र संशयः । श्रियं च लभते नित्यं न च
स्वर्गान्निवर्तते ॥ ६१ ॥ अपुत्रो लभते पुत्रं कन्या विन्दति सत्-
पतिम् । शुर्षिणी शृणुते या तु वरं पुत्रं प्रसूयते ॥ ६२ ॥ राक्ष-

क बालेका प्रणाम है दामोदर देवके लिए प्रणाम है ॥ ५५ ॥
हे भगवन् विष्णो ! आपको प्रणाम है हे भगवन् शिव ! आप
को प्रणाम है हे भगवन् देव ! आपको प्रणाम है हे देवपूजित !
आपको प्रणाम है ॥ ५६ ॥ कर्मोंके कर्मको प्रणाम है अमित परा-
क्रम आपको प्रणाम है हृषीकेशको प्रणाम हो स्वर्णकेशको प्रणाम
हो ॥ ५७ ॥ महात्मा रुद्र और विष्णुके इस स्तोत्रको (जो पढ़ता
है उसकी सद्गति होती है) सब महर्षियोंने और देवताओंने इकट्ठे
होकर इन दोनोंकी स्तुति की है ॥ ५८ ॥ वेदके विद्वान् व्यास
जीने बुद्धिमान् नारदने भारद्वाजने गर्गने और विश्वामित्रने अग-
स्त्यने पुलस्त्यने और महात्मा धौम्यने भी (इन दानोंकी स्तुति
की है) जो इस हरिहरात्मक स्तोत्रका नित्य पाठ करता है वह
अरोग और बलवान् होता है इसमें कोई सन्देह नहीं है नह
सर्वदा लक्ष्मीको पाता है और स्वर्गसे नहीं लौटना है ५९-६१
पुत्र-रहित पुत्रने पाता है कन्या सत्पतिको पाती है और जो
गर्षिणी स्त्री इसको पढ़ती है, वह सत्पुत्रको उत्पन्न करती है ६२
जहाँ पर यह स्तोत्र पढ़ा जाता है तहाँ पर राक्षस पिशाच और

सारव पिशानाश्च विघ्नानि च विनायकाः । भयं तत्र न कुर्वति
पत्रागं पठ्यते स्तवः ॥ ६३ ॥

इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिःशो विष्णुर्वाणि हरिहरात्मक-
स्वामी नाम पञ्चविंशत्यधिकशतमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥

जनमेजय उवाच । अथयाते तत्रो देवे कृष्णे चैव महात्मनि ।
पुनश्चासीत् कथं युद्धं परेषां लोगहर्षणम् ॥ १ ॥ वैशम्पायन
उवाच । कृष्णाण्डसंगृहीते तु रथे निष्ठुगृहस्तरा । अभिदुद्राव
कृष्णं च बलं पशुममेव च ॥२॥ततः शरशर्तुरुप्रैस्तान् विध्वाप
रणे गुरुः । भगर्परोपसंकुद्रः कुपारः प्रवरो नदन् ॥३॥ शर
संवृतगात्रास्ते त्रयस्त्रय इवागवः । शौण्ठितीवप्लुतीर्गात्रैः प्रायु-
ध्यन्त गुरुं ततः ॥ ४ ॥ ततस्ते युद्धमार्गज्ञास्त्रयस्त्रिभिरनुत्तमैः ।
वापच्यग्नेपपार्जन्यैर्विभिदुर्दामिनेजसः ॥५॥ शैलनारुणासावित्रै-

विनायक भी विघ्न नही करते हैं ॥ ६३ ॥ एक सौ पच्चीसवाँ
अध्याय समाप्त ॥ १२५ ॥

जनमेजयने कहा, कि-भगवान् शंकर और कृष्णके युद्धसे
निवृत्त होने पर दूसरोंके रोगियोंको लड़ा करने वाला युद्ध फिर
किस प्रकार हुआ था । १। वैशम्पायनजीने कहा, कि तदनन्तर
जिसको कुंभांड पकड़ रहा उस रथ पर स्वामी कार्तिकेय बैठ गए
और कृष्ण पशुमन और बलदेवजीकी ओर दौड़े ॥ २ ॥ तद-
नन्तर स्वामी कार्तिकेय रणमें सँकड़ों भगंकर अस्त्रोंसे उन्हें
वीचने लगे फिर क्रोधमें भरे हुए श्रेष्ठ कुपार गर्जन लगे ॥ ३ ॥
बाणोंसे जिनका शरीर शुभ रहा था ऐसे वे तीनों तीन अग्नियों
की सभान अग्ने रक्तमें सने हुए शरीरोंके द्वारा स्वामी कार्तिकेय
से लड़ने लगे ॥४॥ तदनन्तर युद्धके मार्गको जानने वाले पदीत
तेजस्वी पशुमन बलदेव और वासुदेव ये तीनों वापच्य अग्नेय
और पार्जन्य नामके तीन श्रेष्ठ अस्त्रोंसे वेधना चाहने लगे । ५।

(१०८८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [पड्विंशाधिकशततम
 स्तान् स विष्वाध कोपवान् । तस्य दीप्तशरीरस्य दीप्तनापधरस्य
 च ॥६॥ शरीरघानस्त्रमागाभिर्गमन्ति स्म महात्मनः । यदा तदा
 गुहः क्रुद्धः प्रज्वलन्निव तेजसा ॥ ७ ॥ अस्त्रं ब्रह्मशिरो नाम
 कालकल्पं दुरासदम् । सन्दष्टौष्ठपुटः संख्ये जगृहे पात्रकः प्रभुः
 मधुक्ते ब्रह्मशिरसि सहस्रांशुसमगमे । उग्रं परमदुर्धर्षं लोकत्रय-
 करे तथा ॥ ६ ॥ हाहाभूषु सर्वेषु प्रधावत्सु सगन्ततः । केशवः
 केशिपथनश्चक्रं जग्राह वीर्यवान् ॥ १० ॥ सर्वेषामस्त्रवीर्याणां
 वारणं घानन तथा । चक्रमपनिचक्रस्य लोके स्थातं महात्मनः ११
 अस्त्रं ब्रह्मशिरस्तेन निष्पन्नं कृतमोजसा । घनैरिवातपापाये सवि-
 तुर्मण्डलं यथा ॥ १२ ॥ ततो निष्पन्नतां याते नष्टवीर्ये गहौ-

तव तो कोपमें भरे हुए कार्तिकेय शैल, वारुण और सावित्र नामक
 अस्त्रोंसे उन तीनोंके बीचने लगे तदनन्तर (वे तीनों) प्रदीप्त
 बाण बाले और चमकते हुए धनुषको धारण करने वाले महात्मा
 स्कन्दके बाणोंसे अपनी अस्त्र मायासे ग्रस लेते थे उस समय
 स्वामी कार्तिकेय कभी २ क्रोधमें भर कर तेजसे जलनेसे लगते
 थे ॥ ६ ॥ ७ ॥ तदनन्तर प्रभु अग्निकुमारने अपने दोनों ओठों
 को दाव कर कालकी समान दुरामद् ब्रह्मशिर नामक अस्त्रको
 उठा लिया ॥ ८ ॥ संसारका क्षय करने वाले सूर्यकी समान
 मभावान् परम दुर्धर्ष उग्र ब्रह्मशिर अस्त्रका प्रयोग करने पर ६
 जब सब प्राणी हाहाकार करके चारों ओरको भागने लगे तब
 केशी दैत्यका नाश करन वाले वीर्यवान् केशवने अपने चक्रको
 उठा लिया ॥ १० ॥ जिगकी आज्ञा संसारमें कहीं नहीं रुकनी
 थी ऐसे महात्मा विष्णुका प्रसिद्ध चक्र सब अस्त्रोंके वीर्यको नष्ट
 करने वाला और सब अस्त्रोंको हराने वाला था ॥११॥ जिस
 प्रकार प्रीष्म अतु वीर्यनेके अनन्तर मेघ सूर्य मण्डलको निष्पन्न
 कर डालते हैं इसी प्रकार उस अस्त्रने ब्रह्मशिर नामक अस्त्रको

जसि । तस्मिन् ब्रह्मशिरस्त्रे क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ १३ ॥ गृहः
 प्रजज्वाल रणे हविषेवाग्निरुन्वणः । शत्रुघ्नी ज्वलिता दिव्या
 शक्तिं जग्राह काञ्चनीम् ॥ १४ ॥ तां प्रदीप्तां महोत्क्राभां युर्गन्ता-
 ग्निसमप्रभाम् । घण्टामालाकुलां दिव्यां चित्रेण रूपितो गृहः १५
 ननाद बलवच्चापि नादं शत्रुभयंकरम् । सा च तिता तदा तेन
 ब्रह्मण्येन महात्मना ॥ १६ ॥ जृम्भमाणेव गगने संप्रदीप्तमुखी
 तदा । आधावत महाशक्तिः कृष्णस्य चक्राक्षिणी ॥ १७ ॥
 भृशं विपण्यः शक्रोऽपि सर्वांगरगणोर्वृतः । शक्तिं प्रज्वलितां दृष्ट्वा
 दग्धः कृष्णेति चान्नवीत् ॥ १८ ॥ तां सगीपमनुप्राप्तां महाशक्तिं

बलपूर्वक फीका कर दिया ॥ १२ ॥ प्रकार उस अस्त्रने ब्रह्म
 शिर नामक अस्त्रको बलपूर्वक फीका कर दिया जब ब्रह्मशिर
 अस्त्रका वीर्य नष्ट होगया और वह महाबलवान् अस्त्र फीका
 पड़ गया तब तो स्वामी कार्तिकेयके नेत्र क्रोधके मारे लाल ताल
 हो गए ॥ १३ ॥ फिर स्वामी कार्तिकेय हवि पड़नेसे बड़े हुए
 अग्निकी समान रूपमें प्रज्वलित होने लगे और उन्होंने शत्रुओं
 का नाश करने वाली मुखर्णकी दमकती हुई शक्ति उठा ली १४
 उस जलती हुई उल्काकी समान आभावाली और मंलयकालके
 अग्निकी समान प्रभावाली घंटोंकी मालाओंसे व्याकुल दिव्य
 शक्तिके क्रोधमें भरे हुए कार्तिकेयने फेंक दिया ॥ १५ ॥ और
 बलपूर्वक शत्रुओंको हरानेके लिये नाद करने लगे ब्रह्मण्ये
 महात्माके द्वारा फेंकी हुई वह शक्ति ॥ १६ ॥ आकाशमें जंभाई
 सी लेती हुई चली वह कृष्णका चक्रवाहनेवाली महाशक्ति अपने
 मुखको प्रदीप्त करके दौड़ी ॥ १७ ॥ उस समय सब देवताओंसे
 घिरा हुआ इन्द्र भी बहुत खिन्न होगया और शक्तिके प्रज्वलित
 होती हुई देख कर कहने लगा कि-कृष्ण भस्म होजावेंगे ॥ १८ ॥
 परन्तु महायुद्धमें जब वह शक्ति श्रीकृष्णके पास आई तब श्रीकृष्ण

(१०६०) * महाभारत-हरिबंशपर्व २ * [पड्विंशाधिकशततम

महामृधे । हुंकारेणैव निर्भर्त्स्य पातयामास भूतले ॥१६॥ पाति-
तायां महाशक्त्या साधु साध्विति सर्वशः । सिंहनादं ततश्चक्रुः
सर्वे देवाः सवासवाः ॥२०॥ ततो देवेषु नर्दत्सु वासुदेवः प्रताप-
वान् । पुनश्चक्रं स जग्राह दैत्यान्तकरणं रणे ॥२१॥ व्याविध्य-
माने चक्रे तु कृष्णेनाप्रतिमौजसा । कुमाररक्षणार्थाय विभ्रती
सुतनुं तदा ॥ २२ ॥ दिग्वासा देववचनात् प्रविष्टा तत्र कोटवी ।
लम्बमाना महाभागा भागो देव्यास्तथाष्टमः ॥२३॥ चित्रा कन-
कशक्तिस्तु सा च नग्ना स्थितान्तरे । अथान्तरात् कुमारस्य देवीं
दृष्ट्वा महाभुजः परांमुखस्ततो वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ २४ ॥
श्रीभगवानुवाच । अपगच्छापगच्छ त्वं धिक्त्वामिति वचोऽब्रवीत् ।
विमेवं कुरुपे विघ्नं निश्चितस्य वधं प्रति ॥ २५ ॥ वैशम्पायन

ने हुंकार शब्दसे उसका तिरस्कार करके उसको भूमिमें गिरा
दिया ॥ १६ ॥ महाशक्तिके गिराने पर सब देवता और इन्द्र
चारों ओरसे साधु २ का सिंहनाद करने लगे । २०। जब देवता
गर्जने लगे उस समय प्रतापी वासुदेवने दैत्योंका अन्त करनेवाले
चक्रको फिर उठा लिया ॥ २१ ॥ अप्रतिम ओजवाले श्रीकृष्ण
जब चक्रको घुमा रहे थे इतनेमें ही कुमारकी रक्षा करनेके लिये
लम्बमाना कोटवी देवी सुन्दर शरीरको धारण कर तहाँ आई
वह शिवजीके वचनसे कुमारकी रक्षा करनेके लिये तहाँ नङ्गी ही
घुस आई थी और वह पार्वतीदेवीके अष्टमांशसे उत्पन्न हुई
थी ॥ २२ ॥ २३ ॥ सुवर्णकी विचित्र शक्ति (और कुमारके)
बीचमें वह नङ्गी आकर खड़ी होगई, महाभुज कृष्णने कुमारके
बीचमें देवीको खड़ी हुई देख कर अपना मुख फेर लिया, फिर
वह मधुसूदन कहने लगे २४ श्रीभगवान्ने कहा, कि-अरी भाग!
भाग ! तुम्हे धिक्कर है, जिसका मैंने वध करना निश्चित कर लिया
है उसके बधमें तू इस प्रकार क्यों विघ्न डालती है ॥२५॥ वींशं-

उवाच । श्रुत्वा चैवं वचनं तस्य योऽवी तु तदा मभो । नैव वासः
 समाधत्त कुमारपरिरक्षणात् ॥२६॥ श्रीभगवानुवाच । अगवाह
 गुहं शीघ्रपपाहि रणाजिरात् । स्वस्ति ह्येवं भवेद्य योत्स्यते
 योत्स्यता मया ॥ २७ ॥ तां च दृष्ट्वा स्थिता देवो हरिः संग्राम-
 मूर्द्धनि । संग्रहार ततरचक्रं भगवान् वासवानुजः ॥ २८ ॥ एवं
 कृते तु कृष्णेन देवदेवेन धीमता । अपवाह गुहं देवी हरसान्नि-
 ध्यमागवत् ॥२९॥ एतस्मिन्तरे चैव वर्तमाने महाभये । कुमारे
 रक्षिते देव्या बाणस्तं देशमापयी ॥ ३० ॥ अगमान्तं गुहं दृष्ट्वा
 मुक्तं कृष्णेन संयुगात् । बाणशिवन्तपते तत्र स्वयं योत्सयामि मा-
 धवम् ॥३१॥ वैशम्पायन उवाच । भूतयज्ञगणारचौ च बाणानीकं
 च सर्वशः । दिशः प्रदुद्रुवुः सर्वे भयमोहितलोचनाः ॥ ३२ ॥

पायनजीने कहा, कि-हे विभो ! कोटवीने श्रीकृष्णके वचनको
 सुन कर भी कुमारकी रक्षाके कारण बस्त्र नहीं पहिरा, । २६ ।
 फिर भगवान् कहने लगे, कि-तू गुहको लेकर रणाङ्गणमेंसे शीघ्र
 ही भाग जा, इस प्रकार ही इसकी कुशल होसकेगी, नहीं तो यह
 मुझसे युद्ध करेगा, तो मैं भी इससे युद्ध करता रहूँगा ॥ २७ ॥
 उसको संग्रामके घुहाने पर खड़ी हुई देख कर इन्द्रके अनुज मर्ग-
 वान् कृष्णने अपने चक्रका संहार करलिया २८ देवदेव बुद्धि-
 मान् कृष्णने जब ऐसा कर लिया, तब देवी कोटवी तहाँसे गुह
 को लेकर शिरजीके पास पहुँच गई २९ देवीके द्वारा कुमारकी
 रक्षा होने पर तहाँ बड़ा भारी भय फैली लगा इसी समय बाणा-
 सुर तहाँ पर आगया ३० कृष्णसे छूटकर कार्तिकेयको भागता
 हुआ देखकर बाण विचारने लगा, कि-मैं कृष्णसे स्वयं ही युद्ध
 करूँगा ३१ वैशम्पायनजीने कहा, कि-उस समय भयके कारण
 जिनके नेत्र घबड़ा उठे थे, वे भूत और यज्ञ बाणासुरकी सेनामें
 चारों ओरसे भाग रहे थे ॥ ३२ ॥ बहुतसी प्रमायोंकी सेनाके

प्रमाथगणभूमिष्ठे सैन्ये दीर्णे महासुरः । निर्जनात्ताप ततो वाणो
युद्धायाभिमुखस्त्वरन् ॥ ३३ ॥ भीमपहरसौर्वोरैर्देवैः सुमहा
रथैः । महावल्गैर्महावीरैर्वज्रीव सुरसत्तमैः ॥ ३४ ॥ याविध्युः पुरोहि
शत्रुवधं वदन्तस्तथैव चान्ये श्रुतशीलवृद्धाः । जपैश्च मभ्रती
तथोपधीभिर्महात्मनः स्वस्त्ययनं प्रचक्रुः ॥ ३५ ॥ ततस्तूर्यपी ।
दैश्च भेरीणां तु महास्वनैः । सिंहनादैश्च दैत्यानां वाणः कृष्ण
गभिद्रवत् ॥ ३६ ॥ दृष्ट्वा वाणं तु निर्यातं युद्धार्थैव व्यवस्थितम् ।
आरुह्य गरुडं कृष्णो वाणायामिमुखो ययौ ॥ ३७ ॥ आयान्त-
मय तं दृष्ट्वा यदूनामृपभं रणे । नैनतेयमथारूढ कृष्णमप्रतिगौज-
सम् ॥ ३८ ॥ अथ वाणस्तु तं दृष्ट्वा ममुखे प्रत्युपस्थितम् । उवाच
ब्रवन् क्रद्धो वासुदेवं तरस्त्रिनम् ॥ ३९ ॥ वाण उवाच । तिष्ठ तिष्ठ
न मेघ त्वं जीवन्मतिगमिष्यसि । द्वारकां द्वारकस्यांश्च सुहृदो

भाग जाने परे भी वाणासुर खराके साथ बढता ही चला गया ३३
जिस प्रकार श्रेष्ठ देवताओंसे इन्द्र धिरा होता है इसी प्रकार वह
भी उस समय भयंकर पहार वाले महारथी भयंकर दैत्येन्द्रोंसे
धिर रहा था ३४ तदनन्तर पुरोहित शत्रुका वध हो यह कहकर
और दूसरे शास्त्र तथा आचारमें प्रवीण पुरुष मंत्र तथा औप-
धियोंसे महात्मा वाणासुरका स्वस्तिवाचन करने लगे ॥ ३५ ॥
तदनन्तर तूर्योंके नादके भेरियोंके महाशब्दसे और दैत्योंके सिंह-
नादके साथ वाणासुर कृष्णकी ओर दौड़ने लगा ॥ ३६ ॥
वाणासुरको निकल कर युद्ध करनेके लिये आते देखकर कृष्ण
गरुड पर सवार हो उसके सामने युद्ध करनेको चले ३७ फिर
उसने अप्रतिम ओजवाले गादवोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णको गरुड पर
चढ़ आतेहुए देखा ॥ ३८ ॥ तदनन्तर कुर्तिले वासुदेवको अपने
सामने खड़ा हुआ देखकर वाणासुर क्रोध भरकर कहने लगा
वाणासुरने कहा, कि-खड़ा रह ! खड़ा रह ! त आज मेरे सामने

द्रव्यसे न च ॥ ४० ॥ सुवर्णानर्णान्विज्ञानानद्य द्रव्यसि माधव ।
 मयाभिभूतः सगरे मुमुर्षुः कालनोदितः ॥ ४१ ॥ अद्य बाहुसहस्रेण
 कथमप्रभुजे रणे । मया सह समागम्य योत्स्यसे गरुडध्वज ४२
 अद्य त्वं धी मया युद्धे निर्जितः सह धान्त्ववः । द्वारकां शोणितपुरे
 निहतः संस्परिष्यसि ॥ ४३ ॥ नानागणहारणोपेतं नानागदविभू
 पितम् । अद्य बाहुसहस्रं मे कौटिभूतं निशामय ॥ ४४ ॥ गर्ज-
 तस्तस्य वाक्यौघा जलौघा इव सिन्धुतः । निश्चरन्ति महाघोरा
 वातोद्भृता इवोर्मयः ४५ रोषार्थकुले चैव नेत्रे तस्य नभूवतुः ।
 जगद्विपन्ननिव खे महामूर्य इवोदितः ॥ ४६ ॥ तच्छ्रुत्वा नार-
 दस्तस्य बाणस्यात्पूर्जितं वचः । जहास सुमहाहासं भिदन्निव

से जीता हुआ न जा सकेगा और द्वारका तथा द्वारकामें स्थित
 अपने मित्रोंको भी न देख सकेगा ॥ ३९ ॥ ४० ॥ तुम्हें काल
 खचेड़ खाया है तू मराऊ हो रहा है हे माधव ! मुझसे तिरस्कार
 पाकर आज तू सुवर्णके रंगवाले वृत्तोंके अग्रभागको देखेगा ४१
 हे गरुडध्वज ! तू आठ भुजावाला है फिर मुझ सहस्र भुजावाले
 के साथ रणमें भेंटा होनेपर कैसे लड़सकेगा ४२ आज मैं युद्धमें
 तुम्हें और तेरे धान्त्ववोंको जीत लूँगा तब तू शोणितपुरमें घायल

होकर द्वारका स्मरण करेगा ॥ ४३ ॥ अनेक प्रकारके आयुधों

से युक्त बहुतसे बाजूबन्दोंसे विभूषित मेरी सहस्र भुजाओंको तू
 करोड़ भुजाओंकी समान देख ४४ जैसे समुद्रमेंसे वायुसे हिलती
 हुई लहरोंवाले भयंकर जलके समूह निचलते हैं तिसीप्रकार गर्जना
 करने वाले बाणासुर (के मुख) से वाक्योंके समूह निचल रहे
 थे ४५ उसके नेत्र रोषसे व्याकुल हो गए, और वह जगत्को भस्म
 करनेकी इच्छासे आकाशमें उड़्य हुए महामूर्यकी समान मतीत
 होने लगा ४६ नारदजी बाणासुरके इस बड़ेभारी वचनको सुन
 न आकाशतलको भेदते हुएसे बड़ी जोरसे हँसने लगे ॥ ४७ ॥

नभस्तलम् ॥ ४७ ॥ योगपट्टमुपाश्रित्य तस्थौ युद्धदिदृक्षया ।
 कौतूहलोत्फुल्लदृशः कुर्वन्पर्यटते मुनिः ॥ ४८ ॥ कृष्ण उवाच ।
 बाण किं गर्जसे मोहाच्छूराणां नास्ति गर्जितम् । एहोहियुध्वस्पर
 रणे किं वृथा गर्जितेन ते ॥ ४९ ॥ यदि युद्धानि बचनैः सिद्धे
 युर्दितिनन्दन । भवानेव जयं नित्यं बहवद्दं प्रजल्पति ॥ ५० ॥
 एहोह जय मां बाण जितो वा बसुधातले । चिरायावाङ्मुखोदीनः
 पतितः शेष्यसेऽसुरैः ॥ ५१ ॥ इत्येवमुक्त्वा बाणं तु मर्मभेदिभि
 राशुगैः । निर्विभेद तदा कृष्णस्तमपोधैर्महाशरैः ॥ ५२ ॥ विनि-
 भिन्नस्तु कृष्णेन मार्गणैर्मर्मभेदिभिः । स्मयन्वाणस्ततः कृष्णं
 शरवर्षैरवाकिरत् ॥ ५३ ॥ ज्वलद्भिरिव संपुक्तं तस्मिन् युद्धे
 सुदारुणे । ततः परिग्रन्थिस्त्रिशैर्गदानामरशक्तिभिः ॥ ५४ ॥ सुशालैः
 पट्टिशैश्चैव च्छादयाणांस केशवम् । स तु बाहुसहस्रेण गर्जितो

और योगका आश्रय लेकर युद्धको देखनेकी इच्छासे खड़े हो गए
 और वह जिनके नेत्र कौतूहलके कारण खिल रहे थे ऐसे
 मुनि तहाँ पर घूमने लगे ४८ श्रीकृष्णने कहा, कि-हे बाण ! तू
 मोहवश गर्जना क्यों कर रहा है शूर पुरुषोंमें गर्जना नहीं होती है
 आ ! आ !! युद्ध कर रणमें तेरे वृथा गर्जनेसे क्या लाभ है ४९
 हे दितिनन्दन ! क्या युद्ध बचनोंसे सिद्ध होजाते है-? तुम जयके
 विषयमें बहुतसी असम्बद्ध बातें-कर रहे हो ५० हे बाणासुर !
 आ ! आ !! और मुझे जीत अथवा मुझसे हारकर पृथ्वीतलमें
 नीचेकी मुखकर अपने असुरोंके सहित सोजा ॥ ५१ ॥ श्रीकृष्ण
 बाणासुरसे इसप्रकार कह कर उसको शीघ्र जाने वाले अमोघ
 बाणोंसे मारनेलगे ॥ ५२ ॥ कृष्णके द्वारा मर्मभेदी बाणोंसे विधा
 हुआ बाणासुर मुस्कराकर श्रीकृष्णकी बाणोंसे छाने लगा ॥ ५३ ॥
 तदनन्तर सहस्र भुजाओंके कारण गर्भमें भरा हुआ देहसत्तम
 जलते हुए बाणोंसे संपुक्त श्रीकृष्णके दारुण युद्धमें परिघ तल-

दैत्यसत्तमः ॥ ५५ ॥ योषयामास सगरे द्विबाहुमथ लीलगा ।
 लाघवात्तस्य कृष्णस्य बलिमून् कपान्वितः ॥ ५६ ॥ ततोस्त्र परमं
 दिव्यं तपसा निर्वितं महत् । यदपतिहतं युद्धे सर्वाग्नित्रिना-
 शनम् ॥ ५७ ॥ ब्रह्मणा विहितं दिव्यं तन्मुमोच दितेः सुतः ।
 तस्मिन्मुक्ते दिशः सर्वास्तमः विहितमण्डलाः ॥ ५८ ॥ प्रादुरा-
 सन्सहस्राणि सुघोराणि च सर्वशः । तपसा संवृते लोके न माज्ञा-
 यत किञ्चन ५९ साधु साध्विति वाणं तु पूजयन्ति स्म दानवाः ।
 हाहा धिगिति देवानां श्रूयते वायुदीरिता ॥ ६० ॥ ततोस्त्रवल-
 वेगेन सार्विष्णव्यः सुदारुणाः । घोररूपा महाघोरा निपेतुर्वाण-
 वृष्टयः ॥ ६१ ॥ नैव वाताः मवायन्ति न मेघो संवरन्ति च ।
 अस्त्रे विसृष्टे वाणेन दह्यमाने च केशवे ॥ ६२ ॥ ततोस्त्रं सुमहा-

चार गदा तोमर शक्ति मूसल और पट्टिशोंसे छाने लगा ५४-५५
 इस प्रकार वाणासुर दो भुजावाले श्रीकृष्णको खेलता हुआ सा
 लड़ाने लगा परन्तु फिर भी कृष्णके कुर्निलेपनसे बलिका पुत्र
 वाणासुर क्रोधमें भर गया ५६ और दितिके पुत्रने ब्रह्माजीके
 रचे हुए सब शत्रुओंके नाशक युद्धमें अपनिहित, तपसे रचे हुए बड़े
 भारी श्रेष्ठ दिव्य अस्त्रको छोड़ा उस अस्त्रके छोड़ने पर सब
 दिशाओंके मण्डल अन्धकारसे ढक गए । ५७ । ५८ । और तहाँ
 पर चारों ओरसे सहस्रों, भयंकर (आकार) मकट होने लगे, संसार
 के अन्धकारसे भरणानेके कारण कुछ जाननेमें नहीं आसका उस
 समय दानव साधु साधु कह कर वाणासुरकी पूजा करने लगे
 और देवताओंकी कही हुई यह वाणी सुनाई आने लगी, कि-
 हा ! हा !! धिक्कार है धिक्कार है !! ६० तदनन्तर अस्त्रके बल
 के वेगसे लपटों वाली दारुणा महाघोर वाणावृष्टिमें होने लगी ६१
 उस समय चलते हुए वाणासुरके केशवके ऊपर अस्त्र छोड़ने पर
 वायुका चलना बन्द होगया और मेघोंने भी घूमना छोड़ दिया ६२

(१०६६) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * पद्मविंशतिअधिकशततम

वेगं जग्राह मधुसूदनः । पार्जन्यं नाम भगवान् कालान्तकनिर्भर
रणे ॥६३॥ ततो वितिमिरे लोके शराग्निः प्रशमं गतः । दानवा
गोघसंकल्पाः सवभूनस्तदा भृशम् ॥ ६४ ॥ दानवास्त्रं प्रशान्तं
तु पर्जन्यास्त्रोपिमन्त्रिते- । ततो देवगणाः सर्वे नदन्ति च हसन्ति
च ॥ ६५ ॥ हते शस्त्रे महाराजः दैतेयः क्रोधमूर्च्छितः । भूयः
सञ्छादयापास केशवं गरुडे स्थितम् ॥ ६६ ॥ मुशनेः पट्टिशैव
च्छादयापास केशवम् । तस्य तां तरसा सर्वा वाणिवृष्टिं समुद्य-
ताम् ॥ ६७ ॥ प्रहसन् वारयापास केशवं शत्रुसूदनः । केशवंस्य
तु वाणेन वर्तमाने महाइवे ॥ ६८ ॥ तस्य शार्ङ्गविनिर्मुक्तैः शरै-
रशनिसंनिभैः । तिलशस्तद्रथं चक्रे सारवध्वजपताकिनम् ॥ ६९ ॥
चिच्छेद कवचं कायान्मुकुटं च महाप्रभम् । कामुकं च महातेजा

तदनन्तर भगवान् मधुसूदनने रणमें कालकी समान महावेगवान्
पार्जन्य अस्त्रको उठा लिया ॥६३॥ तब-तो संसारमेंसे अन्धकार
जातारहा और वायाग्नि शान्त होगई और सब दानवोंके संकल्प
भी व्यर्थ होगए ॥६४॥ मधुसूदन पार्जन्यास्त्रके अभिमन्त्रित होनेपर दानवाए
शान्त होगया तो सब देवता आनन्दित होने लगे और हँसने
लगे ॥६५॥ हे महाराज शस्त्रके नष्ट होग ने पर वायासुर मूर्च्छित
होगया और गरुड पर बैठे हुए केशवको (नाणोंसे) फिर धाना
चाहने लगा ॥६६॥ और मूसल तथा पट्टोंसे केशवको पाटने लगा
शत्रुसूदन श्रीकृष्णने उस आती हुई वायावृष्टिको वेगपूर्वक दूर
करदिया जब केशव और वायाका महायुद्ध होरहा था उस समय
केशवने अपने शार्ङ्गधनुषसे वज्रकी समान बलोंको छोड़कर वाया-
सुरके रथके घोड़ोंके ध्वजोंके और भण्डियोंके तिलकी समान
दुपट्टे कर डाले । ६७ । ६८ । और उसके शरीर परसे कवच
को काट कर (पृथ्वीमें गिरादिया) तथा उसके महाकान्तिमान्
मुकुटको धनुषको और हाथके बाणोंको भी काट डाला फिर

हस्तावापं च केशवः ॥ ७० ॥ चिन्वाध चैनसुरसि नाराचेन स्म-
यन्निव । स मर्माभिहतः संख्ये गमुर्गाहालाचेतनः ॥ ७१ ॥ तं शृणु
मूर्च्छितं वाणं महारपरिपीडितम् । पासादवरशृङ्गस्थो नारदो
दुनिपुङ्गवः ॥ ७२ ॥ उत्थायापश्यत तदा कक्ष्याम्होदनतत्परः ।
वादयानो नन्वारचैव दिष्ट्या दिष्ट्येति चात्रवीत् ॥ ७३ ॥ अहो
मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम् । दृष्टं मे यदिदं चित्रं दामो-
दरपराक्रमम् ॥ ७४ ॥ जय वाणं महाबाहो दैतेयं देवकिन्निपम् ।
यदर्थपशतीर्णोसि तत्कर्म सफली कुरु ॥ ७५ ॥ एवं स्तुत्वा तदा
देवं वाणैः खं द्योतयन् शितैः । इतस्ततः सम्यतद्भिर्नारदो व्य-
चरद्रणे ॥ ७६ ॥ प्रमुष्येतां भवतां तत्र तावन्योन्वयमभिद्रुतौ । युद्धं
त्वंभूद्राहनयोरुभयोर्देवदैत्ययोः ॥ ७७ ॥ गरुडस्य च संग्रामो मयू-

महातेजस्वी केशवने सुस्फुराकर उत्सकी छातीमें वाण पारा मर्म
में चोट लगनेसे अल्पचेतननाला हुआ बाणासुर युद्धमें मूर्च्छित हो
गया । ७० । ७१ । महारसे पीड़ित होकर बाणासुरको मूर्च्छित
हुआ देख गहलके श्रेष्ठ कंगूरे पर बैठे हुए नारदजी उठ कर उसे
देखने लगे और अपनी बगलोंको बजाने लगे और अपने नासूनों
को भी बजाने लगे और बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ
कहने लगे । ७३ । मैंने दामोदरका विचित्र पराक्रम देखा अतः
मेरा जन्म सफल होगया और मेरा जीवन सुजीवन होगया २४
हे महाभुक्तकृष्ण ! आप देवकिन्निप दानव बाणासुरको जीतिये
और जिस कार्यके लिये आपने अवतार लिया है उस कामको
सफल करिये ॥ ७५ ॥ इस प्रकार केशवकी स्तुति करके नारद
जी इधर उधर गिरते हुए तेज वाणोंसे आकाशको प्रकाशित कर
रणमें घूमने लगे ॥ ७६ ॥ तदनन्तर इधर उधर दौड़ती हुई भवजा
युद्ध करने लगीं, तदनन्तर केशव और बाणासुरके वाहन गरुड
और बुद्धिमान मयूरका पंख और चोंचके महारसे तथा चरण

(१०६८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [षड्विंशाधिकशततम

रस्य च धीमतः । पञ्चतुण्डप्रहारैस्तु चरणांस्यनखैस्तथा ॥७८॥
अन्योन्यं जघ्नतुः क्रुद्धौ मयूरगरुडाबुधौ । वैनतेयस्ततः क्रुद्धो
मयूरं दीप्तनेजसम् ॥ ७९ ॥ जग्राह शिरसि त्त्रिषं तुण्डेनाभि-
पतंभादा । उत्क्षिप्य चैव पक्षाभ्यां निजघान महाबलः ॥८०॥
पद्भ्यां पार्ष्णाभिघाताभ्यां कृत्वा घातान्यनेकशः । आकृष्य चैनं
तरसा विकृष्य च महाबलः ॥८१॥ निःसंज्ञं पानयामास गग-
नादिव भास्करम् । मयूरे पतिते तस्मिन् पपातातिबलो भुवि ८२
वाणः समरसंविग्नश्चिन्तयन् कार्यमात्मनः । मयातिबलमत्तेन न
कृतं सुहृदां वचः ॥ ८३ ॥ पश्यतां देवदैत्यानां प्राप्नोस्म्यापद-
मुत्तमाम् । तं दीनगनसं ज्ञात्वा रणे वाणं सुविक्रलवम् ॥ ८४ ॥
चिन्तयद्भगवान् रुद्रो वाणरत्नणमातुरः । ततो नन्दीं महादेवः गाह

और सुवक्र के प्रहारसे युद्ध होने लगा ॥ ७७ ॥ ७८ क्रोधमें भरे
हुए मयूर और गरुड़ आपसमें प्रहार करने लगे तदनन्तर गरुड़जी
ने क्रोधमें भरकर दीप्तनेज वाले मयूरके शिरमें पंख और तुण्डका
महार किया और फिर महाबली गरुड़ने अपने पङ्खोंसे मयूरको
उठाकर मारना आरम्भ कर दिया ८० फिर पैर और पसलियोंसे
अनेक प्रहार करके महाबली गरुड़जी उसको बलपूर्वक खेंच कर
आकाशमेंको उड़े ॥ ८१ ॥ फिर जिसप्रकार आकाशमेंसे सूर्यको
गिराया जाय इसप्रकार मूर्च्छित मयूरको नीचेको गिरा दिया मयूर
के गिरने पर अतिबली वाणासुर पृथ्वीमें गिर पड़ा ८२ समरसे
धक्काया हुआ वाणासुर उस गगन विचार करने लगा, कि-मेंने
बलमें मदमत्त होनेके कारण गिरीका नचन नहीं माना था ॥८३॥
इस लिए देवता और दैत्योंके सामने ही मुझ पर बड़ी भारी
आपत्ति पड़ रही है वाणासुरको रणमें धक्काया हुआ और मन
को हलका करती हुआ जान कर । ८४॥ भगवान रुद्र विचार
करने लगे और वाणासुरकी रक्षा करनेके लिए आतुर हुए महा-

गम्भीरया गिरौ ॥८५॥ नन्दिकेश्वर याहि त्वं यतो वाणो रणे
 स्थितः । रथेनानेन दिव्येन सिंहयुक्तेन भास्वता ॥ ८६ ॥ वाणो
 संयोजयाशु त्वगलं युद्धाय वानय । प्रपाथगणमध्येहं स्थास्यामि
 न हि मे मनः ॥ ८७ ॥ योद्धुं वितरते ह्यथ वाणं संरक्ष्य गम्य-
 ताम् । तथेत्युक्त्वा ततो नन्दी रथेन रथिना वरः ॥ ८८ ॥ यतो
 वाणस्ततो गत्वा वाणमाह शनैरिदम् । दैत्यासु रथमातिष्ठ शीघ्र-
 मेहि महाबलः ॥ ८९ ॥ ततो युध्वस्व कृष्ण वी दानवान्तकरं
 रणे । भारोड रथं वाणो महादेवस्य धीमतः ॥ ९० ॥ आरूढः
 स तु वाणश्च तं रथं ब्रह्मनिर्मितम् । तं स्पन्दनगधिष्ठाय भव-
 स्यामिततेजसः ॥ ९१ ॥ प्रादुश्चक्रे महारौद्रमस्त्रं सर्वास्त्रघात-
 नम् । दीप्त ब्रह्मशिरो नाम वाणः क्रुद्धोतिथीर्गन्वान् ॥ ९२ ॥ मदीसे

देवने गंभीर वाणीमें नन्दीसे कहा, कि-॥८५॥ हे नन्दिकेश्वर !
 रणमें जहाँ पर वाणासुर खड़ा हुआ है तहाँ पर तुम इस सिंह
 जुड़े हुए महाशयान रथमें बैठ कर जाओ ॥ ८६ ॥ और उसको
 वाणके पास ले जाओ हे अनय ! अथवा युद्ध करनेसे रोक दो,
 मैं इस समय प्रपाथोंके बीचों हूँ परन्तु मेरा मन नहीं लगता ८७
 और युद्ध करना चाहता है अब तुम वाणकी रक्षा करनेके लिए
 युद्धस्थलमें जाओ तदनन्तर रथियोंमें श्रेष्ठ नन्दीने तथास्तु कहा,
 और तहाँ पर रथके द्वारा पहुँच कर वाणासुरसे धीरेसे कहने
 लगे; कि-हे दैत्य ! तू इस रथ पर बैठ ! हे महाबल ! शीघ्र ही
 आ ! ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ और फिर रणमें दानवोंका अन्त करने
 वाले कृष्णमे लड़ तब वाणासुर बुद्धिमान शंकरके रथ पर
 चढ़ने लगा ॥ ९० ॥ वाणासुर ब्रह्मागीके रथे हुए उस रथ
 पर बैठ गया अभिन तेजस्वी शिवके रथ पर बैठनेके अन्तर
 क्रोधमें भरे हुए अतिवृत्तान् वाणासुरने सब अस्त्रोंको नष्ट करने
 वाले महावयंकर ब्रह्मशिर नामक मदीसे अस्त्रोंको प्रकट किया

ब्रह्माशरसि लोकः क्षोभमुपागमत् । लोकसंरक्षणार्थे वै तत्सृष्टं
 पद्मयोगिनिना ॥ ६३ ॥ तच्चक्रकेण निहत्यास्त्रं पादकृष्णस्वर
 स्त्रिवनम् । लोके प्रख्यातयशसं वाणगपतिमं रणे ॥ ६४ ॥ कथितानि
 क्व ते तात वाण किं न विकल्पसे । अपमम्भि स्थितो युद्धे युध्य-
 स्व पुरुषो भव । कार्तवीर्यार्जुनो नाम पूर्वं बाहुसहस्रमान् ॥ ६५ ॥
 महाबलः स रामेण द्विबाहुः समरे कृतः । तथा तवापि 'दर्पोऽयं
 बाहूनां वीर्यसम्भनः ॥ ६६ ॥ एष ते दर्पशमन करोमि रणमूर्धनि ।
 यावत्ते दर्पशमनं करोम्यद्य स्वबाहुना ॥ ६७ ॥ तिष्ठेदानी न
 मेऽद्य त्वं मोक्षसे रणमूर्धनि । अथ तद् दुर्लभं दृष्ट्वा युद्धं परम-
 दारुणम् ॥ ६८ ॥ तत्र देवासुरसमे युद्धे नृत्यति नारदः । निर्जि-
 तारच गणाः सर्वे प्रद्युम्नेन महत्तमना ॥ ६९ ॥ निक्षिप्तवादा

ब्रह्माशर अस्रके मदीप्त होने पर मनुष्य चुम्ब होने लगे ब्रह्माजी
 ने उसको संसारकी रक्षा करनेके लिए ही रचा था ॥ ६१-६३ ॥
 श्रीकृष्ण उस अस्रके वाणसे नष्ट करके संसारमें प्रसिद्ध यश
 वाले रणमें अप्रतिम तरस्वी वाणासुरसे कहने लगे, कि-॥ ६४ ॥
 हे वाणासुर ! अब तेरी बातें कहीं गई हे तात ! अब तू बड़बड़
 न्यां नहीं करता है, मैं खड़ा हुआ हूँ अब तू युद्ध कर और पुरुष
 बन पहले एक कार्तवीर्य अर्जुन नाम वाला राजा था उसके सहस्र
 भुजाएँ थीं उस महाबलीको समरमें परशुरामजीने दो भुजावाला
 कर दिया था इसी प्रकार तेरे भी भुजाओंके कारण उत्पन्न हुए
 दर्पको (मैं नष्ट कर दूँगा) ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ मैं रणके मुहाने
 पर तेरे दर्पको नष्ट करता हूँ जब तक अपनी भुजासे मैं तेरे दर्प
 को शान्त करूँ तब तू रणमें खड़ा रहा आज मैं तुम्हें रणके मुहाने
 पर नहीं छोड़ूँगा इस परम दारुण दुर्लभ युद्धको देख कर ॥ ६८ ॥
 नारदजी उस देवासुर सम्राटकी समान युद्धमें नाचने लगे उधर
 महान्मा प्रद्युम्नेने भी मय गणोंको जीत लिया ॥ ६९ ॥ तब वे

युद्धस्य देवदेवं गणाः पुनः । स तच्चक्रं सहस्रारं नदन् मेघ इवो-
 प्पण्णे ॥ १०० ॥ जग्राह कृष्णस्त्वरितो बाणान्तकरणं रणे ।
 तेजो गङ्गोत्तिपां चैव तेजो वज्राशनेस्तथा ॥ १ ॥ सुरेशस्य च
 यत्तेजस्तच्चक्रं पर्ग्वस्थितम् । त्रेगाग्नेश्चैव यत्तेजो यच्च वीं ब्रह्म-
 चारिणाम् ॥ २ ॥ ऋषीणां च ततो ज्ञानं तच्चक्रं सपवस्थि-
 तम् । पतिव्रतानां यत्तेजः प्राणारश्च मृगपक्षिणाम् ॥ ३ ॥ यच्च
 चक्रधरेष्वस्ति तच्चक्रं सन्निवेशितम् । नागराक्षसयन्त्राणां गंध-
 र्वाप्सरसापि ॥ ४ ॥ त्रैलोक्यस्य च परमाणं सर्वं चक्रं व्यवस्थि-
 तम् । तेजसा तेन संयुक्तं ज्वलन्निव च भास्करः ॥ ५ ॥ वपुषा
 तेज आधत्ते बाणस्य मधुखे स्थितम् । ज्ञात्वातितेजसा चक्रं कृष्णे
 नाभ्युदितं रणे ॥ ६ ॥ अपमेयं ह्यविहितं रुद्राणी चावनीन्ध्रवम् ।

युद्ध करनेकी बातोंको छोड़ कर देवदेव शिवके पास फिर
 भाग गए तदनन्तर फुर्ती करना चाहने वाले श्रीकृष्णने वर्षाकाल
 के मेघकी समान शब्द करके सहस्र अरे वाले चक्रको बाणासुर
 का अन्त करनेके लिए उठा लिया, नक्षत्रोंका जो तेज है और
 जो वज्र तथा अशान्तिका तेज है ॥ १०० ॥ १०१ ॥ और देवेन्द्र
 का जो तेज है वह तेज चक्रमें स्थापित था त्रेताग्निका जो तेज है
 और ब्रह्मचारियोंमें जो तेज है ॥ १०२ ॥ ऋषियोंका जो ज्ञान
 है वह सब चक्रमें स्थित था, पतिव्रताओंका जो तेज है पशुपक्षि-
 योंका जो प्राणबल है १०३ ॥ और चक्रधारण करने वालोंमें
 जो कुल्ल है वह सब चक्रमें रख दिया था सर्प राजस यज्ञ गन्धर्व
 तथा अप्सराओंका तथा त्रिलोकिका जो प्राणबल है वह सब
 चक्रमें स्थापित था उस तेजसे संयुक्त हुआ बाणासुरके सामने
 खड़ा हुआ वह चक्र अपने शरीरसे प्रकाशित होते हुए सूर्यकी
 समान तेजको धारण कर रहा था अतितेजस्वी कृष्णके द्वारा
 अपमेय और कहीं नष्ट न होने वाले चक्रको उठाया हुआ जान

(११०२) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * षड्विंशतिशत त

अजेयमेतत्त्रैलोक्ये चक्रं कृष्णेन धार्यते ॥७॥ वाणं त्रायस्य देव
त्वं यावच्चक्रं न मुञ्चति । ततस्त्र्यक्षो वचः श्रुत्वा देवीं लम्बा-
मथावधीत् ॥ ८ ॥ गच्छैहि लम्बे शीघ्रं त्वं वाणसंरक्षण मति ।
ततो योगं समाधाय अदृश्या दिगवत्सुता ॥९॥ कृष्णस्यैकस्य तद्रूपं
दर्शयत् पार्श्वमागता । चक्रोद्यतकरं दृष्ट्वा भगवन्तं रणाजिरे १०
अन्तर्धानमुपागम्य त्यज सा वाससी पुनः । परित्राणाय वाणस्य
त्रिजयापिष्टिता ततः ॥११॥ मुखे वासुदेवस्य दिग्वासां कोटवी
स्थिता । तां दृष्ट्वाथ पुनः प्राप्तां देवीं रुद्रस्य सम्मताम् ॥ १२ ॥
लम्बां द्वितीयां तिष्ठन्तीं कृष्णो वचनमध्वनीत् । भूयः साऽगर्पता-
म्राज्ञी दिग्यस्त्रावस्थिता रणे ॥१३॥ वाणत्राणपत्न्या हन्मि वाणं

कर रुद्राणीने शिवसे कहा, कि श्रीकृष्ण इस त्रिलोकीमें अजेय
चक्रको उठा रहे हैं ॥१०४-१०७॥ हे देव ! जब तक यह चक्र
को न छोड़े उससे पहिले ही आग वाणासुरकी रक्षा कर लीजिये
इस वचनको सुन कर तीन नेत्र वाले महादेवजीने लम्बा देवीसे
कहा, कि-॥ १०८ ॥ हे लम्बे ! तू वाणासुरकी रक्षा करनेके
लिए शीघ्र ही जा, तदनन्तर दिग्वानकी पुत्री योगका आश्रय
लेकर अदृश्य होगई ॥ १०९ ॥ फिर वह कृष्णके पास जाकर
अपना एक (लम्बा नाम वाला रूप दिखाने लगी रणाङ्गणमें
भगवान् वासुदेवको चक्र उठाता हुआ देख कर ॥ ११० ॥ वह
अन्तर्धान हुआगई फिर उसने अपने नखको त्याग दिया और
वाणासुरकी रक्षा करनेके लिये तहाँ पर फिर खड़ी होगई १११
(कोटवी लम्बाका ही उपनाम है) फिर वह कोटवी नङ्गी होकर
वासुदेवके सामने खड़ी होगई रुद्रकी पाननीया उम देवीको
श्रीकृष्णने फिर आया हुआ देखा ॥ ११२ ॥ श्रीकृष्ण लम्बा
को दूमरी बार खड़ी हुई देव कर कुञ्जकदने लगे, तब उमके नेत्र
अगर्पके कारण लालगाल होगए और वह वाणकी रक्षा करनेके

न संशयः । एवमुक्त्वा तु कृष्णेन भूयो देव्यब्रवीदिदम् ॥ १४ ॥
 जाने त्वां सर्षभूतानां सष्टारं पुरुषोत्तमम् । महाभागं महादेवग-
 नन्तं नीलमण्ड्यम् ॥ १५ ॥ पद्मनाभ हृषीकेश लोकानामादिसं-
 भवम् । नाहंसे देव हन्तुं नीं बाणमप्रातम रणे । १६ ॥ प्रयच्छ
 स्वभयं बाणो जीवपुत्री त्वमेव च । गपा दत्तवरो ह्येष भूगश्च परि-
 रक्ष्यते ॥ १७ ॥ न मे मिथ्या समुद्योगं कर्तुं गर्हसि पापव । एव-
 मुक्ते तु वचने देव्या पुरपुरञ्जयः ॥ १८ ॥ कृष्णः मभापते वाक्यं
 शृणु सत्यं तु भामिनि । बाणो बाहुसहस्रं न दत्ते दर्पमाश्रितः ।
 एतेषां ह्येदनं त्वद्य कर्तव्यं नात्र संशयः । द्विबाहुना च बाणेन
 जीवपुत्री भविष्यसि ॥ २० ॥ आसुर दर्पमाश्रित्य न च मां सं

लिये रणमें नद्दी ही खड़ी रही "मैं बाणोंको अवश्य पारहालूंगा"
 श्रीकृष्णके इस प्रकार कहने पर वह देवी फिर बहने लगी,
 कि— ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ मैं आपको सब भूतोंको रचने वाले
 पुरुषोत्तम महाभाग महादेव अनन्त नील अण्ड्य पद्मनाभ हृषी-
 केश और लोगोंके आदि कारण जानती हूँ हे देव! आपको रणमें
 अद्वितीय बाणासुरका बध नहीं करना चाहिये ११५-११६ आप
 बाणासुरको अभय दीजिये आपने मुझे बर दिया था, कि तू
 जीवित पुत्रवाली रह अब उसकी फिर रक्षा करिये ॥ ११७ ॥
 हे माधव ! आप मेरे उद्योगको व्यर्थ न करना (लम्बा और
 कोटवी एक ही नाम है यह पार्वतीके अंशसे उत्पन्न हुई है और
 इसने नाणासुरकी माताका भी अवनार धारण किया था) उस
 देवीके इस प्रकार कहने पर शत्रुओंके पुरोंको जीतने वाले
 श्रीकृष्ण कहने लगे, कि-हे भामिनी ! तू मेरे सत्य वचनको सुन
 यह बाणासुर सहस्र भुजाओंके कारण घमण्डमें भरा रहता
 है ११८-११९ इस लिये इनको तो अवश्य ही काटा जावेगा, हाँ
 दो भुजावाले बाणासुरसे तू जीवित पुत्र वाली रह सकेगी १२०

(११०४) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * षड्विंशतिशततम

श्रियिष्यति । एवमुक्ते तु वचने कृष्णेनाविलष्टकर्मणा ॥ २१ ॥
गोवाच देवी वाणो गं देवदत्तो भवेदिति । अथ तां कार्तिकेयस्य
मातरं सोमिभाष्य वै २२ । गोवाच वाणं समरे वदतां प्रवरः
प्रभुः । युधतां युधतां संख्ये भवतां कोटवी स्थिता ॥ २३ ॥
अशक्तानामिव रणे धिग्वाण तव पौरुषम् । एवमुक्त्वा ततः कृष्ण-
स्तच्चक्रं परमात्मवान् ॥ २४ ॥ निपीलिताक्षो वगसृजद्वाणं प्रति
महाबलः । क्षेपणाद्यस्य मुह्यन्ति लोकाः सस्थाणुजङ्गमाः ॥ २५ ॥
क्रव्यादानि च भूतानि तृप्तिं यान्ति महामृधे । तममतिमकर्माणं
समानं सूर्यवर्चसा ॥ २६ ॥ चक्रमुद्यम्य समरे कोपदीप्तो गदा-
धरः । स मुष्णन् दानवं तेजः समरे स्वेन तेजसा २७ चिच्छेद
चाहंश्चक्रेण श्रीधरः परमोजसा । अलातचक्रवत्तूर्णं भ्राम्यमाणं

यह आसुरभावके कारण मेरा आश्रय नहीं लेगा सरलतासे
कर्म करनेवाले श्रीकृष्णके इसप्रकार वचन कहने पर ॥ १२१ ॥
देवी कहने लगी, कि-यह वाणासुर आपका दिया हुआ ही वचा
रहे इस प्रकार कार्तिकेयकी मातासे भाषण करनेके अनन्तर १२२
वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णने समरमें वाणासुरसे कहा, कि-अरे !
लड़ ! लड़ ॥ तेरी माता कोटवीखड़ी हुई है ॥ १२३ ॥ अशक्त
पुरुषोंकी समान तू रणमें (खड़ा हुआ) है अतः हे वाण ! तेरे
पुरुषार्थको धिक्कार है ! इसप्रकार कहनेके अनन्तर परमात्मवान्
महाबली श्रीकृष्णने वाणकी ओर उस चक्रको फेंकदिगा, उस
चक्रके फेंकनसे स्थावर जगमात्मक सब लोक मोहमें पड़जाते
हैं ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ और महायुद्धमें कच्चे मांसका भक्षण करने
वाले माणी वृक्ष होजाते हैं, उस अद्वितीय कर्म करने वाले मूर्खकी
समान तेजस्वी चक्रको गदापरने क्रोममें भर कर ठठा लिया या
फिर श्रीधर अपने तेजसे दानवके नेत्रका हरण करके उसकी
भुजाओंको अपने चक्रमें बनपूर्वक काटने लगे थे उस समय वह

रणान्निरे ॥ २८ ॥ त्रिसं तु वासुदेवेन बाणस्य रणमूर्धनि ।
 विष्णुचक्रं भ्रमत्पाशु शीघ्रचाद्रूपं न दृश्यते ॥ २९ ॥ तस्य बाहु-
 सहस्रस्य पर्यायेण पुनः पुनः । बाणस्यच्छेदनं चक्रं तच्चक्रं रण-
 मूर्धनि ॥ ३० ॥ कृत्वां द्विवाहुं तं बाणं क्षिन्नशास्त्रमिष दुपम् ।
 पुनः कराग्रे कृष्णस्य चक्रं मातं सुदर्शनम् ॥ ३१ ॥ वैशम्पायन
 उवाच । कृतकृत्ये तु संप्राप्ते चक्रे दैत्यनिपातने । स्रवता तेन
 कायेन शोणितौघपरिप्लुतम् ॥ ३२ ॥ अभवत् पर्वताकारच्छिन्न-
 बाहुर्महासुरः । अष्टगत्तरन विविधान् नादान् सुञ्चन् घनो यथा
 तस्य नादेन महता केशवो रिपुमूदनः । चक्रं भूपः क्षेप्तुकामः
 बाणनाशार्थमुद्यतः । तमुपेत्य महादेवः कुमारसहितोऽत्रवीत् ३४

चक्र रणाङ्गणमें वरुणकी समान शीघ्रतासे घूमता हुआ चला
 था ॥ १२६ ॥ १२८ ॥ बाणासुरके रणमें वासुदेवका फेंका हुआ
 विष्णुचक्र इतनी शीघ्रतासे घूम रहा था, कि-उसका रूप दिखाई
 नहीं पड़ता था ॥ १२९ ॥ वह चक्र रणके मुहाने पर बारम्बार
 घूम कर बाणासुरकी सहस्र भुजाओं (मेंसे एक २) को काटने
 लगा ॥ १३० ॥ शास्त्रा कटे हुए वृत्तकी समान बाणासुरको दो
 भुजा बाला करके सुदर्शन चक्र श्रीकृष्णके हाथमें आगया १३१
 वैशम्पायनजीने कहा, कि-दैत्योंको गिरानेवाला जब वह चक्र
 कामको करके श्रीकृष्णके पास पहुँचगया उससमय वह रक्तमें
 भराहुआ था और उसमेंसे रक्त टपक रहा था १३२ उस समय
 जिसकी भुजाएँ कटगई हैं ऐसा बाणासुर पर्वतकी समान दीखने
 लगा रक्तसे मल हुआ बाणासुर तब भी मेघभी समान अनेक
 प्रकारके शब्द करने लगा ॥ १३३ ॥ शत्रुओंका नाश करनेवाले
 केशव उसके बड़े भारी नाद करने पर उसका नाश करनेके लिये
 चक्र फेंकनेको तयार होगये उससमय महादेव और स्कन्द उनके
 पास आकर उनसे कहने लगे ॥ १३४ ॥ शिवने कहा, कि-हे महा-

(११०६) * महाभारत-हरिवंशपर्वर * [पद्मविंशतिप्रश्नतम

ईश्वर उवाच । कृष्ण कृष्ण महाबाहो जाने त्वां पुरुषोत्तमम् ।
 मधुकैदम्भदन्तारं देवदेवं सनातनम् ॥ ३५ ॥ लोकानां त्वं गति-
 देव त्वत्प्रसूतमिदं जगत् । अजेरस्त्वं त्रिभिर्लोकैः ससुरासुर-
 पन्नगैः ॥ ३६ ॥ नस्मात् संहर दिव्यं त्वमिदं चक्रं समुद्यतम् ।
 अनिवार्यमसंहार्यं रणे शत्रुभयंकरम् ॥ ३७ ॥ वाणस्यास्याभयं
 दत्तं मया केशिनिपूदन । तन्मे न स्मोद्दृश्या वाच्यगतस्त्वां क्षा-
 मयाम्यहम् ॥ ३८ ॥ श्रीकृष्ण उवाच । जीवतां देव वाणोऽस्मे-
 तच्चक्रं निवर्तितम् । मान्यस्त्वं देवदेवानामसुराणां च सर्वेशः ३९
 नृगस्तेस्तु गमिष्यामि यत्कार्यं ते महेश्वर । न तावत्क्रियते तस्मा-
 न्मामनुज्ञातुमर्हसि ॥ ४० ॥ एवमुक्त्वा महादेव कृष्णस्तूर्णं महा-
 मनाः । अगाम तत्र यत्रास्ते प्राञ्चुक्विः सायकश्चितः ॥ ४१ ॥

शुन कृष्ण ! मैं आपको जानता हूँ; कि-आप पुरुषोत्तम तथा मधु-
 कैदम्भका नाश करने वाले और सनातन देवदेव ! हैं ॥ १३५ ॥
 हे देव ! आप लोकोंकी गति हैं यह सब जगत् आपसे ही उत्पन्न
 हुआ है, देवना असुर और पन्नगसहित तीनों लोक भी आपको
 नहीं जीत सकते १३६ इस लिए आप जिसका निवारण और
 संहार नहीं किया जा सकता तथा जो रणमें शत्रुओंको भग देने
 वाला है उस उठाएहुए दिव्यचक्रसे आप घर दीजिये ॥ ३७ ॥
 हे केशनिपूदन ! मैंने इस वाणासुरको अभयदान दे दिया है वह
 मेरा वाच्य व्यर्थ न जाय इसलिये मैं आपसे (इमपर) क्षमा
 कराना चाहता हूँ १३८ श्रीकृष्णने कहा, कि-हे देव ! मैंने अपने
 चक्रको हटा लिया अब यह वाण जीता रहे हे देव ! आप देव-
 ताओंके और असुरोंके भी सर्वथा मान्य हैं १३९ आपको मरणाप
 हो अब मैं जाता हूँ हे महेश्वर ! मैं (वाणवशरूपी) जो कार्य
 है उसको नहीं करता, इसलिये अब आप मुझे अनुज्ञा दीजिये
 महादेवजीसे-इसप्रकार कहकर महापनस्वी कृष्ण शीघ्रनामे चढ़े

१ गते कृष्णो गतो नन्दी वाणमाह वनः शुभम् गच्छ वाण मसन्नस्य
 २ देवदेवस्य चाग्रतः ॥ ४२ ॥ तच्छ्रुत्वा नदिवाक्यं तु वाणोऽगच्छत
 ३ शीघ्रतः । द्विन्नवाहुं ततो वाणं दृष्ट्वा नन्दी प्रतापवान् ॥ ४३ ॥
 ४ अपवाह्य रथेर्नेन यतो देवस्ततो ययौ । ततो नन्दी पुनर्वाणं प्राशु-
 ५ वाचोत्तरं वचः ॥ ४४ ॥ वाण वाण मनृत्यस्व श्रेयस्तव भवि-
 ६ ष्यति । एष देवो महादेवः प्रसादसुमुखस्तव ॥ ४५ ॥ शौणि-
 ७ तौघप्लुतौर्गात्रैर्नन्दिवाक्यमचोदितः । जीवितोर्थी ततो वाणः प्रमुखे
 ८ शंकरस्य चै ॥ ४६ ॥ अनृत्यद्गपसंविग्णो दानवः स विचेतनः ।
 ९ तं दृष्ट्वा च प्रनृत्यन्तं भयोद्विग्नं पुनः पुनः ॥ ४७ ॥ नन्दिवाक्य-
 १० प । वितं भक्तानुग्रहकृद्भवः । करुणावशमापन्नो महादेवोऽब्रवी

११ वे । चले जहाँ पर वाणोंमें घिरा हुआ अनिच्छ था ॥ १४१ ॥

श्रीकृष्णके चले जाने पर नन्दीने वाणासुरसे यह शुभ वचन
 कहा, कि हे वाणासुर ! तू मसन्नतामें भरे हुए देवदेव शिवके
 पास जा ॥ १४२ ॥ नन्दीके इस वाक्यको सुनकर शीघ्रतासे
 चलने वाला वाणासुर (शिवजीके पास) जाने लगा उस
 समय प्रतापवान् नन्दी कटी हुई भुजां वाले वाणासुरको
 देख कर ॥ १४३ ॥ उसको रथमें बैठाकर शिवजीके पासके
 लगे चले तदनन्तर नन्दी फिर वाणासुरसे कहने लगे, कि-१४४
 हे वाणासुर ! तू नाच, तो अब तेरा कल्याण होगा इस समय
 महादेवजीका मुख तुझ पर प्रसन्न होनेसे अच्छों दीख रहा है
 नन्दीके कहनेसे अपने जीवनको चाहने वाला वाणासुर उसके
 अग मृत्युद रक्तमें सन रहे थे तब भी शिवजीके सामने नाचने
 लगा, क्यों कि-उस समय वह डर कर अचेतनसा दीख रहा था
 भगसे उद्विग्न होकर उसको नन्दीने वाक्यसे योगके साथ वार-
 म्बार नाचता हुआदेख कर भक्तोंके ऊपर अनुग्रह करनेवाले
 महादेवको उसके ऊपर करुणा आगई और वह कहने लगे,

(११०८) * महाभारत-हरिवंशपर्वे २ * [पट्टविंशाधिकशततम

द्वचः ॥ ४८ ॥ ईश्वर उवाच । वरं वृणीष्व वाण त्वं मनसा
यदभीप्ससि । प्रसादसुमुखस्येहं मियोऽसि मम दानव ॥ ४९ ॥
वाण उवाच । अजरश्चामरश्चैव भवेयं सततं विभो । एष मे
प्रथमो देव वरोस्तु यदि मन्यसे ॥ १५० ॥ देव उवाच । तुल्योसि
दैवतैर्वाण न मृत्युस्तव विद्यते । अथापरं वृणीष्वद्य अनुग्राहोऽसि
मे सदा ॥ ५१ ॥ वाण उवाच । यथाहं शोणितैर्दिग्भ्यो भृशातो
ब्रणपीडितः । भक्तानां नृत्यतां देव पुत्रजन्म भवेद्भव ॥ ५२ ॥
श्रीहर उवाच । निराहाराः क्षमावन्तः सत्पार्जवसमाहिताः ।
मद्भक्ता येऽपि नृत्यन्ति तेषामेवं भविष्यति ॥ ५३ ॥ तृतीयं त्वमथे
वाण वरं वर मनोगतम् । तद्विगस्यामि ते पुत्र सफलोऽस्तु भवा-
निह ॥ ५४ ॥ वाण उवाच । चक्रताडनजा घोरा रुजा तीव्रा हि

कि-॥ १४५-१४८ ॥ शिवने कहा, कि-हे वाण ! तेरे मनमें
जो इच्छा हो उस वरको तू माँग ले हे दानव ! तू मुझे मिय है
अतः मेरा मुख तुझे वर देनेके लिए प्रसन्न हो रहा है । १४९।
वाणासुरने कहा, कि-हे विभो ! मैं सर्वदा अजर और अमर
रहूँ यदि आप इस बातको समझें तो यह मेरा पहला वर है
महादेवजीने कहा, कि-हे वाणासुर ! तू तो देवताओंकी वरावर
है तेरी मृत्यु कहाँसे आई अथ तू दूसरे वरको माँग, क्योंकि-मैं
तुझपर सर्वदा अनुग्रह करना चाहता हूँ ॥ १५१ ॥ वाणासुर
ने कहाकि-हे देव ! जिस प्रकार मैं घावसे बहुत ही पीड़ा पारहा
हूँ और रक्तसे सन रहा हूँ हे देव ! जो इस प्रकार नृत्य करें
उनके यहाँ पुत्रका जन्म हुआ करे ॥ १५२ ॥ महादेवजीने कहा,
कि-सत्य और सरलतामें लगे हुए जो क्षमावान् और मेरे भक्त
निराहार रहकर नृत्य करेंगे उनके यहाँ ऐसा ही होगा ॥ १५३ ॥
हे वाणासुर ! अथ तू अपने मन चाहे तीसरे वरको माँग ले
हे पुत्र ! वह वर मैं तुझे दूँगा, तेरा मनोरथ सफल हो १५४

मैऽनघ । वरेणासौ तृतीयेन शान्तिं गच्छतु मै भव ५५ श्रीरुद्र
 उवाच । एवं भवतु भद्रं ते न रुगा प्रगविष्यति । अन्नतं तव
 गात्रं तु स्वस्थाचस्थं भविष्यति ॥५६॥ चतुर्थं ते वरं दक्षि ष्टणीष्व
 यदि कान्तसि । न तेऽहं विमुखस्नात मसादसुमुखो ह्यहम् ॥५७॥
 बाण उवाच । प्रमाथगणवंशस्थं प्रथमः स्नापहं विभो । महा
 काल इति ख्यातिं गच्छेयं शारवतीः सगाः ॥५८॥ वैशम्पायन
 उवाच । एवं भविष्यतीत्याह बाणं देवो महेश्वरः । दिव्यरूपोऽ
 च्ततो गात्रैर्निरुगस्तु ममाश्रयात् ॥ ५९ ॥ ममानिसर्गाद्बाण त्वं
 भव चैवाकुतोभयः । भूपस्ते पञ्चमं दक्षि प्रख्यातचलपौरुषम् ।
 पुनर्नारय भद्रं ते यत्तो मनसि वर्तते ॥६०॥ बाण उवाच । वीरु
 प्यमद्भ्रजं यन्मे मा भूदेव कदाचन । दिवाहुरपि मे देहो न विरूपो

बाणासुरने कहा, कि-हे निष्पाप ! चक्रकी तड़वाके नारण मुझे
 भंकर पीड़ा हो रही है हे भवतीसरे वरसे मेरी यह पीड़ा शान्त
 होजाय १५५ रुद्रने कहा, कि-"ऐसा ही हो" अब तुझे पीड़ा
 नहीं व्यापेगी तेरा शरीर अन्नत होजावेगा और तू स्वस्थ हो
 जावेगा १५६ मैं तुझे चौथा वर देना चाहता हूँ यदि तेरी इच्छा
 हो तो माँगले हे तव ! मैं तुझसे विमुख नहीं हूँ तुझे वर देनेके
 लिये मेरा मुख मसन्न हो रहा है १५७ बाणासुरने कहा कि—
 हे विभो ! मैं प्रमाथोंके वंशमें मुख्य होजाऊँ और सैंडों र्व
 तक महाकाल प्रसिद्ध रहूँ १५८ वैशम्पायनजीने कहा, कि-तव
 महेश्वर देवने बाणासुरसे कहा कि-"ऐसा ही होगा" तू मेरा
 आश्रय लेनेसे दिव्य रूपवाला अन्नत और पीड़ा रहित हो
 जावेगा १५९ हे बाणासुर ! मेरे वरसे तू अकुतोभय होजा तेरा
 बल और पुरुषार्थ प्रसिद्ध है इसलिये मैं तुझे पाँचवाँ वर देना
 चाहता हूँ इस लिये जो तेरे मनमें बाग हो उस वरको तू फिर
 माँगले १६० बाणासुरने कहा, कि-मेरे अङ्गमें जो बिरूपता आ

(१११०) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [सप्तविंशतिशततम

भवेद्भव ॥ ६१ ॥ श्रीहर उवाच । भविता सर्वमिदं यथेच्छसि
महासुर । भवत्वेन न चादेशं भक्तानां विद्यते मम ॥ ६२ ॥
वैशम्पायन उवाच । ततोऽत्रवीन्महादेवो वाणं स्थितगभान्तिके ।
एवं भविष्यते सर्वं यत्त्वया समुदाहृतम् ॥ ६३ ॥ एतावदुक्त्वा
भगवास्त्रिनेत्रो गणसंतृतः । पश्यतां सर्वभूतानां तत्रैवान्तरधीयत
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि ऊषाहरणे वाणा-
सुरवरप्रदानं नाम पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः १-६

वैशम्पायन उवाच । एवं वरान् बहु प्राप्य वाणः प्रीतमनो-
भवत् । जगाम सह रुद्रेण महाकालत्वगागतः ॥१॥ वासुदेवोपि
बहुधा नारदं पर्यपृच्छत् । ववानिरुद्धोऽसि भगवन् संयतो नाग
वन्धनैः ॥ २ ॥ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन स्नेहविलिप्तं हि मे मनः ।

गई है वह न रहे हे देव ! मेरा दो भुजावाला स्वरूप भी विरूप
न रहे ॥ ६१ ॥ श्रीमहादेवने कहा, कि- हे महाअसुर ! तू जिस
प्रकार चाहता है वैसा ही सब होजागया ऐसी कोई भी वस्तु नहीं
है जिसे मैं अपने भक्तको न देसकूँ ॥६२॥ वैशम्पायनजीने कहा
कि-तदनन्तर पासमें खड़े हुए महादेवजीने वाणासुरसे (फिर)
कहा, कि-जो बात तूने कही है वह सब ऐसे ही हागी ॥ ६३ ॥
इसप्रकार कहकर अपने गणोंसे घिरेहुए भगवान् शंकर सब भूतों
के सामने तहाँ ही अन्तर्धान होगए ॥१६५॥ एकसौ छब्बीसवाँ
अध्याय समाप्त ॥ १२६ ॥ छ छ

वैशम्पायनजीने कहा, कि इसप्रकार बहुतसे वरोंको पाकर
वाणासुरका मन प्रसन्न होगया और वह महाकालनेके पाकर
भगवान् शंकरके पास चलागया ॥१॥ उर वासुदेव भी नारदसे
चार२ वृक्षने लगे हे भगवन्नागवन्गणोंसे भरा हुआ अनिरुद्ध
कहाँ है मैं इस बातके यथार्थरीतिसे सुनना चाहता हूँ क्योंकि-
मेरा मन स्नेहार्द्र होरहा है धीर अनिरुद्धके पिटनेसे द्वारकापुरी

अनिरुद्धे हते वीरे लुगिता द्वारका पुरी ॥ ३ ॥ शीघ्रं मोक्षयि
 प्थापो यदर्थं वयमागताः । अद्य तं नष्टयन्त्रुं वै द्रष्टुमिच्छामहे
 वयम् ॥४॥ स प्रवेशस्तु भगवन् विदितस्तव सुव्रत । एवमुक्तस्तु
 कृष्णेन नारदः प्रत्यभाषत ॥ ५ ॥ कन्यापुरे कुमारोऽसौ वद्धो
 नागैश्च माधव । एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रं चित्रलेखा श्रुपस्थिता ६
 वाणस्थोत्तमशर्षस्य दैत्येन्द्रस्य महात्मनः । इदमन्तः पुर देव
 मविशन्व यथासुखम् ॥ ७ ॥ ततः मन्त्रिष्ठास्ते सर्वे हनिरुद्धस्य
 गोक्षणे । वलःसुपर्णः कृष्णस्तु मद्युम्नो नारदस्तथा ॥८॥ ततो
 दृष्ट्वा गुरुदं येऽनिरुद्धशरीरगाः । शररूपा महासर्पा वेष्टयित्वा
 तन् स्थिताः ॥९॥ ते सर्वे सहस्रा देहात्तस्य निःसृत्य भोगिनः
 क्षितिं समभिवर्तित्वा प्रकृत्यावस्थिताः शराः ॥१०॥ दृष्टः स्पृष्टश्च
 कृष्णेन सोऽनिरुद्धो महायशाः । स्थितः प्रीतमना भूत्वा प्राञ्जलि-

जुञ्च होगई है ॥ २॥ ३ ॥ हम जिसके लिये यहाँ आए हैं उस
 अनिरुद्धको हम शीघ्र ही छुड़ाना चाहते हैं आंग जिसके शत्रु
 नष्ट होगए हैं उस अनिरुद्धको हम देखना चाहने है ४ ठे सुव्रत
 भगवन् ! वह देश आपको मालूम है भगवान् कृष्णके इसप्रकार
 कहने पर नारदजी उत्तर देने लगे कि-यह माधव! कुमार अनि-
 रुद्ध कन्यापुरमें नागोंसे बंधा पड़ा है, इसी बीचमें वहाँ चित्रलेखा
 शीघ्र ही आकर उपस्थित होगई ॥६॥ (और कहने लगी कि-)
 शिवजीकी उत्तम माननेवाले दैत्येन्द्र पहात्या वाणासुरका अन्तः-
 पुर यह रहा, हे देव ! आप इसमें सुखपूर्वक प्रवेश करिये ॥७॥
 तदनन्तर चलदेव गुरुद कृष्ण मद्युम्न और नारद यह सब अनि-
 रुद्धो छुड़ानेके लिये तहाँ पर घुसे ॥ ८ ॥ तदनन्तर जो वाणरूप
 महासर्प अनिरुद्धके शरीरमें घेरा कर बैठे हुए थे वे गुरुदको
 देखते ही उसके देहमेंसे सहस्रा निकल कर पृथ्वीमें आएए और
 अपनी प्रकृतिमें स्थिर होगए—१० कृष्णने अनिरुद्धको देखा

वाक्यमत्रवीत् ॥११॥ देव देव सदा युद्धे जेना त्वमसि केशव ।
न शक्तः प्रमुखे स्थातुं साक्षादपि शनक्तुः ॥ १२ ॥ ततो महा-
बलं देवं बलभद्रं यशस्विनम् । अभिवादयते हृष्टः 'सोऽनिरुद्धो
महामनाः ॥ १३ ॥ गाध्वं च महात्मानभिवाद्य कृत्वाञ्जलिः ।
खगोत्तमं महावीर्यं सुपर्णमभिवाद्य च ॥ १४ ॥ ततो मकरकेतुं
च चित्रवाणधरं प्रभुम् । गितरं सोऽभ्युपागभ्य प्रद्युम्नमभिवादयत्
सखीगणवृता चैव सा चोपा भवने स्थिता । बलं चातिबलं चैव
वासुदेवं सदुर्जयम् ॥ १६ ॥ असंख्यातगतिं चैव सुपर्णमभिवाद्य
च । पुष्पावाणधरं चैव लज्जागनाभ्यवादयत् ॥ १७ ॥ ततः
शक्रस्य वचनान्नारदः परमद्युतिः । वासुदेवसमीपं स प्रहसन्
पुनरागतः ॥ १८ ॥ वर्णायति तं देवं गोविन्दं शत्रुपूदनम् ।

और उसे छुआ तब महावशस्वी अनिरुद्ध मनमें प्रसन्न हो हाथ
जोड़ कर कहने लगा कि---११ हे देवदेव केशव ! आप युद्धमें
सर्वादा जीगते ही रहते हैं आपके सामने साक्षात् इन्द्र भी खड़ा
नहीं होसकता ॥ १२ ॥ तदनन्तर महापनस्वी अनिरुद्ध प्रसन्न
होकर महाबली यशस्वी बलभद्रको प्रणाम करने लगा ॥ १३ ॥
तदनन्तर उसने हाथ जोड़कर महात्मा केशवको प्रणाम किया
फिर वह महावीर्य पत्तियोंमें श्रेष्ठ गरुड़को प्रणाम कर ॥ १४ ॥
मकरकी ध्वजावाले अपने पिता प्रद्युम्नके पास जाकर उसको
प्रणाम करने लगा ॥ १५ ॥ तदनन्तर भवनमें स्थित सखियोंसे
धिरी हुई ऊपाने भी अतिबली बलदेवजी सदुर्जय वासुदेव और
असंख्यात गति गरुड़जीको भी प्रणाम करके पुष्पोंके बाणको
घोरण करनेवाले प्रद्युम्नको भी लज्जाते प्रणाम किया १६-१७
तदनन्तर इन्द्रके वचनसे परमकान्तिमान् नारदनी केशवके समीप
हँसते २ फिर आगए ॥ १८ ॥ और बैरियोंको कष्ट देनेवाले गोविन्द
देवको बंधाई देगे लगे, कि-हे गोविन्द ! आप मारव्यवत् अनि-

दिव्या वर्षसि गोविन्द अनिरुद्धसमागमात् ॥ १६ ॥ ततोऽ-
 निरुद्धसहिता नारदं प्रणताः स्थिताः । आशीर्भिर्वर्धयित्वा च
 देवपिः कृष्णमब्रवीत् ॥ २० ॥ अनिरुद्धस्य श्रीर्पाख्यो विवाहः
 क्रियतां विभो । जम्बूलमालिकां द्रष्टुं श्रद्धा हि मम जायते २१
 ततः महसिताः सर्वे नारदस्य वचःश्रवात् । कृष्णः प्रोवाच भग-
 वन् क्रियतामाशु मा चिरम् ॥ २२ ॥ एतस्मिन्नन्तरे त्रात कुम्भांडः
 समुपस्थितः । वीवाहिकास्तु सम्भारान् गृह्य कृष्णं नमस्य तुम्हे
 कुम्भाण्ड उवाच । कृष्ण कृष्ण महावाहो भव त्वगभयप्रदः ।
 शरणागतोऽस्मि देवेश प्रंसीदैर्षोजलिस्तव ॥ २४ ॥ नारदस्य वचः
 श्रुत्वा सर्वे प्रागेव चाच्युतः । अभयं यच्छते तस्मै कुम्भाण्डाग
 महात्मने ॥ २५ ॥ कुम्भाण्ड मन्त्रिणां श्रेष्ठ प्रीतोऽस्मि तव सुव्रता

रुद्धका समागम करके बहरहे हैं ॥ १६ ॥ तदनन्तर अनिरुद्धसहित
 (घे तीनों जने) नारदजीके सामने नम्र होकर बैठ गए तब देवपिं
 नारदने आशीर्वादोंसे उनको बढावा देकर श्रीकृष्णसे कदावि २०
 कि-हे विभो ! अनिरुद्धका बीर्याख्य नामवाला विवाह करना
 चाहिये इससमय मुझे जम्बूलमालिका देखनेकी श्रद्धा होरही है
 (वरपत्नीकी स्त्रियोंके उपहासकी वचनावलीको जम्बूलमालिका
 कहते हैं) ॥ २१ ॥ तदनन्तर नारदजीके वचनको सुनकर सब हँसने
 लगे तब कृष्णने कहा, कि-हे भगवन्, यहाँ पर विलम्ब ही चरा
 है जल्दी ही इस बातको करिये ॥ २२ ॥ इसी बीचमें तहाँ पर
 कुम्भांड भी तहाँ पर आगया और उसने विवाहकी सामग्रियोंको
 लाकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया ॥ २३ ॥ कुम्भाण्डने कहा, कि-
 हे महाशुभ कृष्ण ! आप मुझे अभय दीजिये मैं आपके शरणा-
 गत हूँ हे देवेश ! आप प्रसन्न हूजिये मैं आपके हाथ जोड़ता
 हूँ ॥ २४ ॥ श्रीकृष्णने नारदजीकी वान सुनती वी इस लिये
 वह महात्मा कुम्भाण्डको पहले ही अभय देना चाहने थे । २५ ।

(१११४) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [सप्तविंशतिप्रश्नानाम

सुकृतं ते विजानामि राष्ट्रिकोस्तु भवानिह । सुज्ञातिपत्तः समुखी
निवृत्तोस्तु भवानिह ॥ २६ ॥ राज्यं च ते मया दत्तं चिरञ्जीव
ममाश्रयात् । एवं दत्त्वा राज्यमस्मै कुम्भाण्डाय महात्मने ॥ २७ ॥
विवाहमकरोत्तस्यानिरुद्धस्य जनार्दनः । ततस्तु भगवान् बन्धि-
स्तत्र स्वयमुपस्थितः ॥ २८ ॥ स विवाहोऽनिरुद्धस्य नक्षत्रे च शुभे-
ऽभवत् । ततोऽप्सरोगणश्चैव कौतुकं कर्तुं मृद्यतः ॥ २९ ॥ स्ना-
तस्त्वलं कृतस्तत्र सोऽनिरुद्धः स्वभार्यया ततः स्निग्धैः शुभैर्वाक्यै-
र्गन्धर्वाश्च जगुस्तदा ॥ ३० ॥ नृत्यन्त्यप्सरसश्चैव विवाहमुप-
शोभयन् । ततो निर्वर्त्तयित्वा तु विवाहं शत्रुमूदनः ॥ ३१ ॥ अनि-
रुद्धस्य सुप्रज्ञः सर्वैर्देवगणैर्वृतः । आपन्न्य वरदं तत्र रुद्रं देव-
नमस्कृतम् ॥ ३२ ॥ चकार गमने बुद्धिं कृष्णः परपुरञ्जयः ।

(श्रीकृष्णने कहा, कि-) हे मन्त्रिगोमं श्रेष्ठ कुम्भाण्डामें तुम पर
प्रसन्न हैं, हे सुव्रतामैं तुम्हारे सुकार्यको जानता हूँ अब तुम यहाँ
के राजा बन जाओ अपने जानिवालोंके साथ सुखी रहो । २६।
मैंने तुम्हें राज दे दिया अब तुम मेरा आश्रय लेकर चिरचाल तक
जीवित रहो इस प्रकार महात्मा कुम्भाण्डको राज्य देकर २७
जनार्दन अनिरुद्धका विवाह करने लगे तहाँ पर भगवान् शक्ति
अपने आप आए थे ॥ २८ ॥ तदनन्तर अनिरुद्धका विवाह शुभ
नक्षत्रमें हुआ तदनन्तर अप्सराएँ कौतुक करनेको उद्यत होगई २९
जिस समय अनिरुद्धने अपनी भार्याके साथ स्नान करके अलंकार
पहिरे उम समय गन्धर्व प्रेमभरे शुभ वाक्योंसे गान करने लगे ३०
और अप्सराएँ विवाहको शोभित करती हुई नाचने लगीं शत्रु-
मूदन श्रीकृष्ण इस प्रकार अनिरुद्धके विवाहसे निवृत्त हो गए
फिर सब देवताओंमें घिरे हुए शत्रुओंके नगरोंको जीतने वाले
बुद्धिमान् कृष्णने देवताओंसे नमस्कृत वर देनेवाले शिवको
आपन्नित करके चलनेका विचार किया शत्रुनिवृदन श्रीकृष्ण

द्वारकाभिमुखं कृष्णं ज्ञात्वा शत्रुनिपूदनम् ॥ ३३ ॥ कुम्भाएडो
 वचनं प्राह माञ्जलिर्मधुसूदनम् । चाणस्य गावस्तिष्ठन्ति हस्ते तु
 वरुणस्य वीं ॥ ३४ ॥ यासाममृतकल्पं वीं क्षीरं क्षरति माधव ।
 तरणीत्वातिवल्गश्चैव नरो भवति दुर्जयः ॥ ३५ ॥ कुम्भाएडोनेव-
 माख्याते हरिः प्रीतमनास्तदा । गगनाय गतिं चक्रो-गन्तव्यमिति
 निश्चयम् ॥ ३६ ॥ ततस्तु भगवान् ब्रह्मा वर्षीष्य स तु केशवम् ।
 जगाम ब्रह्मलोकं स वृतः स्वभवनालये ॥ ३७ ॥ इन्द्रो मरुदण-
 युनो द्वारकाभिमुखो ययौ । यतः कृष्णस्ततः सर्वे गच्छन्ति जय-
 काक्षिणः ॥ ३८ ॥ वाहनेन गयुरेण सखीभिः परिवारिता । द्वा-
 काभिमुखी ऋषा देव्या गस्थापिता ययौ । ततो वल्गश्च कृष्णश्च
 मधुस्मश्च महाबलः ॥ ३९ ॥ आरूढवन्तो गरुडमनिरुद्धश्च वीर्य-
 वान् । प्रस्थितश्च स तेजस्वी गरुडः पततां वरः ॥ ४० ॥ उन्-

द्वारकाको जाना चाहते हैं इस बातको जान कर ॥ ३१-३३ ॥
 कुम्भाएड हाथ जोड़ कर श्रीकृष्णसे कहने लगा, कि-चाणासुर
 की गौएँ वरुणके यहाँ रहती हैं ॥ ३४ ॥ हे माधव ! उनका-दूध
 अमृतकी सगान होता है उस दूधको पीकर मनुष्य अतिबली और
 दुर्जय होजाते हैं ॥ ३५ ॥ कुम्भाएडके इसप्रकार कहनेपर श्रीकृष्ण
 का मन मसन्न होगया और उन्होंने चलनेका विचार किया ३६
 तदनन्तर भगवान् ब्रह्माग्निने भी केशवको वषाई दी और अपने
 भवनमें रहने वाले व्यक्तियोंके साथ ब्रह्मलोकको चले गए ३७
 गरुडों सहित इन्द्र द्वारकाकी ओरफो चलदिपा वे सब जय चाहने
 वाले जिधर कृष्ण थे उधरको ही चलने लगे ॥ ३८ ॥ और उमा-
 देवीकी बिदाकी हुई ऊपर भी अपनी सखियोंसे विरकर मयूर
 नामक वाहन पर द्वारकाने चली तदनन्तर बलदेव कृष्ण और
 महाबली मधुस्म और वीर्यवान् अनिरुद्ध गरुड पर सवार होगए
 तब पत्नियोंमें श्रेष्ठ तेजस्वी गरुडगी भी चल दिये ॥ ३९ ॥ ४० ॥

मूलयंस्तरुगणान् कम्पयंश्चापि मेदिनीम्। आकुलाश्च दिशः सर्वा
 रेणुध्वस्तमिचाम्बरम् ॥ ४१ ॥ गरुडे संप्रयातेऽभून्मन्दरश्चिर्मर्दिवा-
 कंरः । ततस्ते दीर्घमध्वानं प्रययुः पुरुपर्पभाः ॥ ४२ ॥ आरुह्य
 गरुडं सर्वे जित्वा वाणं महौजसम् । ततोवरतलस्थास्ते वारुणीं
 दिशमास्थिताः ॥ ४३ ॥ अपश्यन्त महात्मानो गावो दिव्यपयः-
 प्रदाः । वेलावनविचारिण्यो नानावर्णाः सहस्रशः ॥ ४४ ॥ श्व-
 क्षाय तदा रूपं कुम्भाण्डवचनाश्रयात् । कृष्णः प्रहरता श्रेष्ठस्त-
 त्वनोर्थविशारदः ॥ ४५ ॥ निशम्य वाणगावस्तु तासु चक्रे मन-
 स्तदा । आस्थितो गरुडं माह स तु लोकादिरव्ययः ॥ ४६ ॥
 श्रीकृष्ण उवाच । वैनतेय मयाहि त्वं यत्र वाणस्य गोधनम् ।
 यासां पीत्वा किल क्षीरममृतत्वमवाप्नुयात् ॥ ४७ ॥ आह मां

(बहू मार्गमें) वृक्षोंको उखाड़ते हुए जाते थे और पृथ्वीको कँपाते
 जाते थे सब दिशाओंको व्याकुल करते हुए चल रहे थे और
 आकाशको धूलसे भरते हुए चल रहे थे ४१ गरुड़जीके चलने पर
 सूर्यकी किरणें मन्द पड़ गईं इसप्रकार वह पुरुपर्पभ लम्बे मार्गको
 तय करने लगे महाओजस्वी वाणासुरको जीतकर गरुड़पर चढ़ने
 के बाद आकाश तलमें पहुँचे हुए वे सब वरुणकी दिशामें पहुँच
 गए ४३ और उन महात्माने समुद्र तटके बनमें घूमने वाली अनेक
 प्रकारके वर्णवाली दिव्य दूध देने वाली सहस्रों गौओंको तहाँ
 देखा ॥ ४४ ॥ तदनन्तर महार करने वालोंमें श्रेष्ठ अर्थविशा-
 रद श्रीकृष्णने कुम्भाण्डके वचनोंसे उन गौओंके रूपको जान
 लिया ॥ ४५ ॥ वाणकी गौओंको देख कर उन्होंने उन पर अपना
 मन डाला और गरुड़ पर बैठे हुए संसारके उत्पत्तिस्थान अव्यय
 कृष्ण कहने लगे ॥ ४६ ॥ श्रीकृष्णने कहा, कि-हे गरुड़ ! जिन
 गौओंके दूधको पीकर मनुष्य अमृतत्वको प्राप्त होजाता है वाणा-
 सुरका ऐसा गोधन जहाँ पर है तहाँको आप चलिये ॥ ४७ ॥

सत्यभामा च वाणगावो ममानय । यासां पीत्वा किल चीरं न
 ीर्यन्ति महासुराः ॥ ४८ ॥ विजरारन जरां त्यक्त्वा भवन्ति
 किल जन्तवः । ता आनयस्व भद्रन्ते यदि धर्मो न लुप्यते । ४९ ।
 अथवा कार्यलोपो वै मैव तासु मनः कृथाः । इति मागब्रवीत्
 सत्या तारचैता विदिता मम ॥ ५० ॥ गरुडं उवाच । दृश्यन्ते
 गात्र एतास्ता दृष्ट्वा गां वरुणालयम् । विशन्ति सहसा सर्वा कार्य-
 मत्र विधीयताम् ॥ ५१ ॥ इत्युक्त्वा चैव गरुडः पक्षवातेन साग-
 रम् । सहसा क्षोभयित्वा च विवेश वरुणालयम् ॥ ५२ ॥ दृष्ट्वा
 जवेन गरुडं प्राप्तं वै वरुणालयम् । वारुणाश्च गणाः सर्वे विभ्रंता
 गाचलंस्तदा ॥ ५३ ॥ ततस्तु वारुणं सैन्यमभिज्ञातुं सुदुर्जयम् ।
 प्रमुखे वासुदेवस्य नानामहरणोद्यतम् । तद्युद्धमभवद् घोरं वारुणैः

सत्यभामाने भी मुझसे कहा, था कि-“जिन गौओंके दूधको
 पीकर महाराजस दृढ़ नहीं होते हैं उन वाणासुरकी गौओंको
 मेरे लिए लेते आना ॥ ४८ ॥ और जिनको पीकर प्राणी जरा
 को त्याग देते हैं उन गौओंको यदि आपका धर्म लुप्त न हो तो
 लेते आइयेगा ॥ ४९ ॥ और काम विगड़ता हो तो आप उनकी
 ओर मन न डुलाना” इस प्रकार मुझसे सत्याने कहा था सो
 गोएँ अब मुझे दीख रही हैं ॥ ५० ॥ गरुड़जीने कहा, कि-गह
 गोएँ मुझे देख कर समुद्रमेंको सहसा घुसी जानी है अतः इस
 का उपाय करना चाहिये ॥ ५१ ॥ इस बातको कह कर गरुड़
 जी अपने बंखोंकी वायुसे समुद्रको चुम्ब कर वरुणालयमें घुसने
 लगे ॥ ५२ ॥ गरुड़जीको वेगपूर्वक वरुणालयमें आते हुए देख
 वरुणदेवनाके सब गण भ्रान्त होकर विचलित होगए । ५३ ।
 तदनन्तर वरुणकी दुर्जय सेनाको नानामकारके अस्त्र उठा कर
 वासुदेवके सामने खड़े होकर युद्ध करनेकी आज्ञा हुई, तब सर्पों
 के शत्रु गरुड़जीके साथ वरुणके गणोंका भगंकर युद्ध होने लगा

(१११८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [सप्तविंशतिशततम

पन्नगारिणा ॥ ५४ ॥ तेषामापततां सभ्ये वारुणानां सहस्रशः ।
भग्नं बलमनाधृष्यं केशवेन महात्मना ॥ ५५ ॥ तनस्ते षड्भुजा
यान्ति तमेव वरुणालयम् । पट्टिं रथसहस्राणि पट्टिं रथशतानि
च ॥ ५६ ॥ वारुणानि च युद्धानि दीप्तशस्त्राणि संयुगे । तद्वलं
बलिभिः शूरैर्वलदेवजनार्दनैः ॥ ५७ ॥ मद्युम्नेनानिरुद्धेन गरु
डेन च सर्वशः । शरीरैर्विधिर्विधैस्तीक्ष्णैर्विध्यमानं सगन्ततः ५८
ततो भग्नं बलं दृष्ट्वा कृष्णेनाकिलष्टकर्मणा । वरुणस्तरथ सकृद्धो
निर्ययौ यत्र केशवः ॥ ५९ ॥ ऋषिभिर्देवगन्धर्वैस्तथैवाप्सरसां गणैः ॥
संस्तूयमानो बहुधा वरुणः ग्रन्थदृश्यत ॥ ६० ॥ द्योण श्रिय-
माणेन पाण्डुरेण वपुष्मता । सलिलसाविणा श्रेष्ठं चापमुद्यम्य
धिष्ठितः ॥ ६१ ॥ अपां पतिरतिकुद्धः पुत्रपौत्रबलान्वितः । आह-
यन्निव युद्धाय विस्फारितगदाधनुः ॥ ६२ ॥ स तु मध्मापयच्छतं

महात्मा केशवने युद्धमें आने वाले वरुणके सहस्रों सैनिकोंके
घाते हुए दुराधर सेनादलको भंग कर दिया ॥ ५४ ॥ ५५ ॥
तदनन्तर वे सब वरुणालयको लौट गए वरुणकी द्विघासठहजार
युद्धके रथोंवाली सेनाको शूरवीर बलदेव जनार्दन मद्युम्न अनि-
रुद्ध और बलवान् गरुड़ चारों ओरसे अनेक प्रकारके बाण मार
कर पीटने लगे ॥ ५६-५८ ॥ तब सरलतासे कर्म करने वाले
श्रीकृष्णके द्वारा अपनी सेनामें भगी पड़ी हुई देख कर
वरुण क्रोधमें भर कर श्रीकृष्णके पासगया चला ॥ ५९ ॥ उस
समय ऋषि देवता गन्धर्व तथा अप्सराओंसे स्तुति किया जाता
हुआ वरुण दिखाई दिया ॥ ६० ॥ उसके ऊपर छत्र लग रहा
था उसका शरीर श्वेत था और उसमेंसे जल टपक रहा था
ऐसा वरुण धनुषको तान कर खड़ा हो गया । ६१ ॥ पुत्र पौत्रों
से घिरा हुआ जलोंका स्वामी वरुण उस समय बड़े भारी क्रोध
में भर रहा था और धनुषको तान कर श्रीकृष्णको बुलावा सा

वरुणः समधानत । हरिं हर इव कुट्टो वाणजालैः समावृणोत् ।
 ततः प्रध्माप्य जलजं पाञ्चजन्यं जनार्दनः । वाणजालैर्दिशः सर्वा-
 रततश्चक्रे महाबलः ॥ ६४ ॥ ततः शरोर्घैर्विगणैर्वरुणः पीडितो
 रणो । स्मयन्निव ततः कृष्णं वरुणः प्रत्यमुध्यत । ६५ ॥ ततोस्त्रं
 वैष्णवं घोरमभिगन्त्याहवे स्थितः । वासुदेवोऽत्रधीद्वान्यं प्रमुखे
 तस्य धीमतः ॥ ६६ ॥ इदमस्त्रं महाघोरं वैष्णवं शत्रुमूदनम् ।
 मथोऽथर्तं वधार्थं ते तिष्ठेदानीं स्थिरो भव ॥ ६७ ॥ ततोऽस्त्रं वरुणो
 देवो दास्रं वैष्णवमुध्यतः । वारुणास्त्रेण संयोज्य विगनाद् महा-
 बलः ॥ ६८ ॥ तस्यास्त्रे वितता ह्यापो वरुणस्य विनिःसृताः ।
 वैष्णवास्त्रस्य शमने वर्तते सगितिजयः ॥ ६९ ॥ आपस्तु वारु-
 दे रहा था ॥ ६२ ॥ ऐसे वरुणने शंख वजायां और दौड़ने लगा
 और जिस प्रकार क्रोधमें भरे हुए महादेव (यज्ञपुरुष) विष्णु
 के पीछे दौड़े थे तिस प्रकार दौड़ कर उनको वाणजालोंसे ढकने
 लगा ॥ ६३ ॥ तब तो महाबली जनार्दनने भी जलमें उत्पन्न हुए
 पांचजन्य शंखको वजा कर वाणोंके जालोंसे सब दिशाओंको
 पूर दिया ॥ ६४ ॥ तदनन्तर निर्मल वाणोंसे रणमें पीड़ित हुआ
 वरुण मुस्करा कर श्रीकृष्णसे युद्ध करने लगा ६५ तब युद्धमें
 खड़े हुए वासुदेवने भयंकर वैष्णवास्त्रको अभिगन्त्रित करके
 बुद्धिमान् वरुणसे यह बात कही कि-॥ ६६ ॥ मैंने तेरा वध करने
 के लिए शत्रुओंको कष्ट देने वाले इस महा घोर वैष्णवास्त्रको
 उठा लिया है अब तू स्थिर होकर खड़ा होजा । ६७ तदनन्तर
 वरुणदेव वैष्णवास्त्रका नाश करनेके लिए उद्यत होगया और
 अपने अस्त्रको वारुणास्त्रसे संयुक्त करके महाबली वरुण गर्जना
 करने लगा ॥ ६८ ॥ तब उसके अस्त्रमेंसे जलकी विस्तृत धाराएँ
 निकलने लगीं इस प्रकार समितिजय वरुण वैष्णवास्त्रको शान्त
 करनेका उद्योग करने लगा ॥ ६९ ॥ वरुणके बार २ फेंके हुए

णास्तत्र क्षिप्त्वा क्षिप्त्वा ज्वलन्ति वै । दहन्ते वारुणास्तत्र ततोऽस्त्रे
ज्वलिते पुनः ॥ ७० ॥ वैष्णवे तु महावीर्यं दिशो भीता विदु-
द्बुधः । तद्भवत् ज्वलितं दृष्ट्वा वरुणः कृष्णामवनीत् ॥ ७१ ॥ स्म-
रस्व प्रकृतिं पूर्वमव्यक्तां व्यक्तलक्षणाम् । तमो जहि महाभाग
तमसा मुह्यसे कथम् ॥ ७२ ॥ सत्त्वस्थो नित्यमासीस्त्वं योगी
श्वर महागते । पञ्चभूताश्रयान् दोषानहंकारं च वर्जय ॥ ७३ ॥
या या ते वैष्णवी मूर्तिस्तस्या ज्येष्ठो ह्यहं तव । ज्येष्ठभावेन
गान्धं तु किं मां त्वं दग्धुमिच्छसि ७४ नाग्निर्विक्रमते ह्यग्नौ त्यज
कोपं युगांश्वर । त्वयि न प्रभविष्यामि जगतः प्रभवो ह्यसि ७५
पूर्व हि या त्वया सृष्टा प्रकृतिर्विकृतात्मिका । धर्मिणी बीजभावेन

जल मज्वलित होने लगे महावीर्यवान् वैष्णवास्त्रके मज्वलित होने
पर वरुणके गण जलने लगे और डर करके दिशाओंमेंको भागने
लगे, वरुणने जलते हुए अस्त्रको देख कर कृष्णसे कहा, कि-
आप अपनी व्यक्त अव्यक्त लक्षणवाली पूर्वप्रकृतिका स्मरण
करिये हे महाभाग ! आप तमोगुणका नाश करिये आप तमोगुण
का नाश करिये आप तमोगुणसे क्यों मोहित हो रहे है ७०-७२
हे योगीश्वर ! हे महामुने ! आप तो नित्यसत्त्वस्थ है, आप पंच
भूतोंमें रहने वाले दोषोंको और अहंकारको त्याग दीजिये ७३
तुम्हारी जो २ वैष्णवी मूर्ति हुई हैं उस २ मूर्तियों में आपका
बड़ा हुआ हूँ, मैं आपका ज्येष्ठभावसे गान्ध हूँ फिर भी आप
मुझे क्यों जलाना चाहते हैं ७४ अग्निके ऊपर अग्नि पराक्रम
नहीं करती है इस लिए हे योशाओं में श्रेष्ठ ! आप कोपको त्याग
दीजिये, आप जगत्के उत्पत्तिस्थान हैं अतः मैं आप पर प्रभाव
जमाना नहीं चाहता ॥ ७५ ॥ आपने पहले प्रकृति अर्थात् माया
और विकृति अर्थात् महदादि कार्यस्वरूपा प्रकृतिको आपने ही
रचा है वह बीजभावसे परिणामधर्मिणी है वह फिर पूर्वभावका

पूर्वधर्म समाधिना ॥७६॥ आग्नेयं वैष्णवं सौम्यं प्रकृत्यैवेदमा-
 दिनः । त्वगा सृष्टं जगदिदं स कथं मयि वर्तते ॥ ७७ ॥ अजेयः
 शाश्वतो देवः स्वयंभूर्भूतभावनः । अक्षरं च क्षरं चैव भावाभागी
 महाद्युते ॥७८॥ रक्ष मां रक्षणीगोहं स्वयानघ नमोस्तु ते । आदि-
 कर्तास लोकाणां त्वयैतद्ब्रह्मली कृणुम् ॥ ७९ ॥ विक्रीडसि महा-
 देव बालः कीडनकैरिव । नन्न हं प्रकृतिद्वेषी नाहं प्रकृतिदूषकः ८०
 प्रकृतिर्या विकारेषु वर्तते पुरुषर्षभ । तस्या विकारशमने वर्तसे
 त्वं महाद्युते ॥८१॥ विकारो वा विकाराणां विकाराय न तेऽनघ ।
 तानधर्मविदो मन्दान् भवान् विकुरुते सदा ॥ ८२ ॥ इदं प्रकृति-

आश्रय लेलेती है ॥ ७६ ॥ आग्नेय वैष्णव सौम्य इन सबको
 प्रकृतिके द्वारा आपने ही रचा है अत एव यह मुझमें किसप्रकार
 रुकसकते हैं ॥ ७७ ॥ आप अजेय हैं शाश्वत देव हैं अपने आप
 उत्पन्न हुए है अक्षर और क्षर स्वरूप हैं हे महाद्युते ! भाव और
 अपाव दोनों ही हैं ॥ ७८ ॥ मैं रक्षा करने योग्य हूँ आप मेरी
 रक्षा करिये हे अनघ ! आगको मण्डल है आप संसारके आदि-
 कर्ता हैं और आपने ही इसको फैला दिया है ॥ ७९ ॥ हे महा-
 देव ! आप बालकके खिलाँनीसे कीड़ा करनेकी समान कीड़ा कर
 रहे है मैं प्रकृतिद्वेषी नहीं हूँ (यहाँ श्रीकृष्णरूप कारणको प्रकृति
 कहा है) और मैं प्रकृतिदूषक भी नहीं हूँ ८० (अहंकार अदि)
 विकारोंमें जो (पूर्ववासना लोभ द्वेष आदि रूपवाली) प्रकृति
 रहती है हे महाद्युते पुरुषर्षभ ! उसके (हिंसादिरूप) विकाररक्त
 शान्त करनेके लिये आप उद्योग कर रहे हैं ८१ आपके विकार
 (क्रोध आदि) हे निष्पाप ! विकारोंके अर्थात् दुष्टोंके विकारोंको
 नाश करनेके लिये होते है आप उन अयर्षवेत्ता मन्दपुरुषोंके) ऊपर
 सर्वदा विकार करते है (तात्पर्य यह है, कि-सर्वात्मा होनेके कारण
 आप किसी पर भी क्रोध नहीं कर सकते तथापि क्रोधी पुरुष

जैदोपैस्तमसा मुह्यते यदा । रजसा चापि संस्पृष्टा तदा मोहः प
वर्तते ॥ ८२ ॥ परावग्ज्ञः सर्वज्ञ ऐश्वर्यं विधिगास्थितः । किं
गोहयसि नः सर्वान् प्रजापतिरिव स्वयम् ॥ ८४ ॥ बरुणेनैव-
मुक्तस्तु कृष्णो लोकपरायणः । भावज्ञः सर्वकृद्धीरस्ततः प्रीत-
मना ह्यभूत् ॥ ८५ ॥ इत्येवमुक्तः कृष्णस्तु प्रहसन् वाक्यमब्रवीत् ।
श्रीकृष्ण उवाच । गावः प्रयच्छ मे वीर शान्त्यर्थं भीमविक्रम ८६
इत्येवमुक्ते कृष्णेन वाक्यं वाक्यविशारदः । बरुणो ह्यब्रवीद्बभूवः
शृणु मे मधुसूदन ॥ ८७ ॥ बरुण उवाच । बाणेन सार्धं समयो
मया देव कृतः पुरा । कथं च समयं कृत्वा कूर्गा विफलमन्यथा ।
त्वमेव वेद सर्वस्य यथा समयभेदकः । चारित्रं दुष्यते तेन न च

अपने दोपसे ही आपको क्रोधवाला देखते है) ॥ ८२ ॥ यह
जगत् प्रकृतिके दोपोंके कारण जब देहको आत्मा माननाल्प
अज्ञानसे मोहिन हो जाता है और जब वह रजोगुणसे युक्त होता
है तब उसको (यह मेरा होजाय) ऐसा मोह होने लगता है ८३
आप परागरको जानने वाले है सर्वज्ञ है ऐश्वर्यमें स्थित हैं
फिर हम सबको प्रजापतिकी समान मोहमें क्यों डाल रहे है ॥ ८४ ॥
बरुणके इस प्रकार कहने पर चित्तोंके भावको जाननेवाले सब
की रचना करने वाले लोक परायण श्रीकृष्ण मनमें प्रसन्न हो
गए ॥ ८५ ॥ और इस प्रकार कहने पर श्रीकृष्ण हँसकर यह
प्रात कहने लगे, श्रीकृष्णने कहा, कि—हे भयंकर पराक्रम करने
वाले वीर ! तुम शान्ति स्थापित करने के लिये गाँवें देदे ॥ ८६ ॥
श्रीकृष्णके इसप्रकार कहने पर वाक्यविशारद बरुण फिर कहने
लगा कि हे मधुसूदन सुनो ८७ बरुणने कहा, कि—हे देव. मैंने पहले
बाणासुरके साथ प्रतिज्ञा की थी अब मैं उसको किसप्रकार विफल
कर सकता हूँ ८८ आग ही इस सब बातको सोचलें, कि—प्रतिज्ञाको
तोड़नेवाला कैसा होता है प्रतिज्ञाको तोड़नेसे उसका चरित दूषित

सद्भिः प्रशस्यते ॥८६॥ धर्मभागिन्द्रो नित्यं वर्ज्यते मधुसूदन ।
 न च लोकानवाप्नोति पापः समयभेदकः ॥ ६० ॥ प्रसीद धर्म-
 लोपरच माऽभून्मे मधुसूदनान मां समयभेदेन योक्तुमर्हसि माधव
 जीवन्नाहं प्रदास्यामि गावो वीं वृषभेक्षण । इत्वा नयस्व मां
 गाव एष मे समयः पुरा ॥ ६१ ॥ एतच्च मे समाख्यातं समयं
 मधुसूदन । सत्यमेव महाबाहो न मिथ्या तु सुरेश्वर ॥ ६३ ॥
 यद्येद्वाहमनुग्राहो रत्न मां मधुसूदनःअथ वा गोषु निर्वन्तो उत्था-
 नय महाशुभ ॥ ६४ ॥ वीशम्पायन उवाच । वरुणेर्नवमुक्तम्तु
 यदूर्ना वंशवर्द्धनः । अभेद्यं समयं गत्वा न्यस्तवादेो गवां पतिः ॥
 स महस्य तनो वाक्यं व्याजहारार्थकोविदः । तस्मान्मुक्तोसि

होजाता है और सज्जन उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं ८६ हे मधु-
 सूदन । धर्मान्वा पुरुष उसे सर्वदा त्यागते रहते हैं, और प्रतिज्ञाका
 तोड़ने वाला पापी पुरुष पुण्य लोकोंको भी नहीं पाता है ६०
 हे मधुसूदन । मेरे धर्मका लोप न हो इस लिये आप प्रसन्न
 हूँ कि हे माधव ! आप मुझे प्रतिज्ञा भङ्ग करनेके लिए बाधित
 न कीजिए हे वृषभेक्षण ! अपने जीतेमें तो मैं गौओंको नहीं
 दूँगा आप मुझे गार कर गौओंको लेनाइये यही मैंने पहले
 प्रतिज्ञा की है ६१-६२ हे मधुसूदन ! यह मैंने अपनी प्रतिज्ञा आप
 से कद दी है महाशुभ सुरेश्वर ! यह प्रतिज्ञा सत्य ही होगी मिथ्या
 नहीं होगी ६३ हे मधुसूदन ! यदि आप मेरी रत्ना करना चाहते हैं तो
 मेरी रत्नाकरिये हे महाशुभ ! आप को गौओंसे बहुत प्रेम हो तो मुझे
 गार कर इन्हें लेनाइये ॥ ६४ ॥ वीशम्पायनजीने कहा, कि-वरुणके
 इस प्रकार कहने पर यादनोंके वंशको बढ़ाने वाले ऋणने प्रतिज्ञा
 को अभेद्य जान कर गौओंके लिए बाद विवाद करना छोड़
 दिया ॥ ६४ ॥ तदनन्तर अर्थ चतुर श्रीऋण हैंस कर यह बात करने
 लगे, कि-तुमने बाणासुरसे प्रतिज्ञा की है इस लिए मैं तुमसे

(११२४) * महाभारत - हरिवंशपर्व २ * [सप्तविंशतिशततम

यद्येवं वाणेन समयः कृतः ॥ ६५ ॥ मसूतैर्मधुरैर्वाक्पैस्तत्त्वार्थ-
गधुभाषितैः । कथं पापं करिष्यामि वरुण त्वद्यहं प्रभो । गच्छ
मुक्तोसि वरुण सत्यसन्धोसि नो भवान् ॥ ६७ ॥ त्वत्पियार्थ
गया मुक्ता वाणगात्रो न संशाः । ततस्तूर्वाग्निनादैश्च भेरीणां च
महास्वनैः ॥ ६८ ॥ अर्घमादाय वरुणः केशवं प्रत्यपूजयत् । केश-
वोर्घं तदा शृद्य वरुणाद्यदुनन्दनः ॥ ६९ ॥ बलं चापूजयद्देवः
कुशलीत्र समाहितः वरुणायाभयं दत्त्वा वासुदेवः प्रतापवान् १००
द्वारकां गस्थितः शौरिः शचीपतिसहायवान् । तत्र देवाः समरुतः
ससाभ्याः सिद्धचारणाः ॥ १ ॥ गन्धर्वाप्सरसश्चैव किन्नराश्चा-
न्तरिक्षगाः । अनुगच्छन्ति भूतेशं सर्वभूतादिमन्वयम् ॥ २ ॥
आदित्यो वसवो रुद्रा अश्विनौ यक्षराक्षसाः । विद्याधरगणाश्चैव

छोड़ता हूँ ॥ ६६ ॥ (तदनन्तर कृष्णने) तत्त्व भरे हुए मधुर
वाक्योंसे (वरुणसे कहा, कि—) हे भभो वरुण ! मैं तुम्हारे साथ
पापमय व्यवहार कैसे करसकता हूँ हे वरुण! जाओ मैंने तुमको
छोड़ दिया तुम्हारी प्रतिज्ञा सत्य रहे ॥ ६७ ॥ तुम्हारा मिय करने
के लिए मैं वाणासुरकी गौओंको छोड़ता हूँ तदनन्तर वरुणने
अर्घ लिया और तूर्वोंका निनाद करा कर तथा भेरियोंका बड़ा
भारी शब्द करा कर श्रोकृष्ण की पूजा करने लगा तब यदुनन्दन
श्रोकृष्णने उस अर्घको ग्रहण कर लिया ॥ ६८ ६९ ॥ तदनन्तर
चतुर पुरुषकी सगान सावधान रहने वाले वरुणने बलदेवकी
की भी पूजा की, तदनन्तर प्रतापी वासुदेव वरुण को अभय
देकर इन्द्रके साथमें ले द्वारकापुरीमें चले उस समय देवता मरुत
साध्य सिद्ध चारण गन्धर्व अप्सराएँ और अन्तरिक्षचारी किन्नर
यह सब सब भूतोंके आदि कारण अन्वय श्रोकृष्णके पीछे २
चलते थे ॥ १०० ॥ १०२ ॥ यश और विजयके साथ मस्थान
करते श्रीकृष्णने पीछे आदित्य बसु रुद्र अश्विनी कुमार यक्ष

ये चान्ये सिद्धचारणाः । गच्छन्मनुगच्छन्ति यशसा विजयेत
 च ॥३॥ नारदश्च महाभागः प्रस्थितो द्वारकां पति । तृष्टो वाण-
 जगं दृष्ट्वा बहलं च कालमियः ॥४॥ कैलासशिखरप्रख्यैः प्रसादैः
 कन्दरैः शुभैः । दूरान्विशम्य मधुहः द्वारकां द्वारमालिनीम् ॥५॥
 पाञ्चजन्यस्य निर्गोप चक्रे चक्रमदाधरः । संज्ञां मयच्छत्रे देवो
 द्वारकापुरवासिनाम् ॥ ६ ॥ देवानुपातिनिर्गोपं पाञ्चजन्यस्य नि-
 स्वनम् । श्रुत्वा द्वारवतीं सर्वे मङ्गलपनुलं गताः ॥७॥ पूर्णकुम्भैश्च
 लाजैश्च बहु विन्यसन्विहरैः । द्वारोपशोभिनां कृत्वा सर्वा द्वार-
 वतीं पुरीम् ॥८॥ सुश्लिष्टरथ्यां सश्रीकां बहुरत्नोपशोभिताम् ।
 विपारिवार्धं सदाप यथैव कुलनीगमाः ॥ ९ ॥ जयशब्दैश्च
 विरिधैः पूजयन्ति स्म गात्रम् । गीततेये तमासीनं नीलाञ्जनच-

राक्षस विद्याधर और सिद्ध भी चल रहे थे ॥ १०३ ॥ जिनको
 कलह प्यारी है ऐमे नारदजी भी वाणसुरके गीतनेको और
 वरुणको देखकर गसन्न होतेहुए द्वारकापुरीको चले ॥ १०४ ॥
 मधुदेवका नाश करनेवाले चक्र और गदाके धारण करनेवाले
 श्रीकृष्णने कैलासके शिखरकी समान, भवनीवाली शुभ कन्दरा
 वाली, और द्वारोंकी मालावाली द्वारकाको दूरसे ही देखकर पांच-
 जन्यका शब्द किया इस प्रकार श्रीकृष्ण द्वारकावासियोंको अपने
 आनेकी सूचना देने लगे ॥ ५ ॥ ६ ॥ जिसके पीछे देवताओंके
 विमानोंका घोष हो रहा था ऐमे पांचजन्यके शब्दको सुनकर
 सब द्वारकावासियोंको परम हर्षहुआ ॥ ७ ॥ उन्होंने स्थान न
 पर जलभरे हुए घड़े रखना कर खीलोंकी बर्पा करवा कर मार्गों
 को साफ करवाकर सारी द्वारकापुरीके द्वारोंको सुशोभित
 करदिया ॥८॥ उसकी गलियोंको साफ करवा दिया और द्वारका
 की रत्नोंसे सुशोभित करदिया तदनन्त कुनपुरोहितोंकी समान
 ब्राह्मण अर्थ लेकर चले ॥ ९ ॥ और अनेक प्रकारके जयनय

(११२४) * महाभारत-हरिवंशपर्वर * [सप्तविंशधिकशततम

यद्येवं चाणेन समयः कृतः ॥ ६६ ॥ मस्रतैर्मधुरैर्वाक्पैस्तत्तदार्थ-
गधुभाषितैः । कथं पापं करिष्यामि वरुण त्वद्यदहं प्रभो । गच्छ
मुक्तोसि वरुण सत्यसन्धोसि नो भवान् ॥ ६७ ॥ त्वत्पियार्थ
गया मुक्ता चाणगात्रो न संशयः । ततस्तूर्वाभिनादैश्च भेरीणां च
महास्वनीः ॥ ६८ ॥ अर्घ्यमादाय वरुणः केशवं प्रत्यपूजयत् । केश-
वोर्घं तदा गृह्य वरुणाद्यदुनन्दनः ॥ ६९ ॥ बलं चापूनयदेवः
कुशलीव समाहितः।वरुणागाभयं दत्त्वा वासुदेवः प्रतापवान् १००
द्वारकां प्रस्थितः शौरिः शनीपतिसहायवान् । तत्र देवाः समरुतः
ससाध्याः सिद्धचारणाः ॥ १ ॥ गन्धर्वाप्सरसरसश्चैव किन्नराश्वा-
न्तरिक्षगाः । अनुगच्छन्ति भूतेशं सर्वभूतादिमव्ययम् ॥ २ ॥
आदित्यो वसवो रुद्रा अश्विनौ यक्षराक्षसाः । विद्याधरगणाश्चैव
छोड़ता हूँ ॥ ६६ ॥ (तदनन्तर कृष्णने) तत्त्व भरे हुए मधुर
वाक्योंसे (वरुणसे कहा, कि-) हे मभो वरुण ! मैं तुम्हारे साथ
पापमय व्यवहार कैसे करसकता हूँ हे वरुण! जाओ मैंने तुमको
छोड़ दिया तुम्हारी प्रतिज्ञा सत्य रहे । ६७। तुम्हारा मिय करने
के लिए मैं वाणासुरकी गीर्वाँको छोड़ता हूँ तदनन्तर वरुणने
अर्घ्य लिया और तूर्वाँका निनाद करा-कर तथा भेरियोंका बड़ा
भारी शब्द करा कर श्रोकृष्ण की पूजा करने लगा तब यदुनन्दन
श्रीकृष्णने उस अर्घ्यको ग्रहण कर लिया ॥ ६८ ६९ ॥ तदनन्तर
चतुर पुरुषकी सपान सावधान रहने वाले वरुणने बलदेवनी
की भी पूजा की, तदनन्तर प्रतापी वासुदेव वरुण को अभय
देकर इन्द्रो साथमें ले द्वारकापुरीमें चले उस समय देवता मरुत
साध्य सिद्ध चारण गन्धर्व अप्सराएँ और अन्तरिक्षचारी किन्नर
यह सब सब भूतोंके आदि कारण अव्यय श्रीकृष्णके पीछे २
चलते थे ॥ १०० ॥ १०२ ॥ यश और विजयके साथ प्रस्थान
करते श्रीकृष्णके पीछे आदित्य वसु रुद्र अश्विनी कुमार यक्ष

ये चान्ये सिद्धचारणाः । गच्छन्मनुमच्छन्ति यशसा विजयेन
 च ॥३॥ नारदश्च महाभागः पस्थितो द्वारकां पति । तुष्टो वाण-
 जयं दृष्ट्वा बहूयं न कल्पियतः ॥४॥ कैलासशिखरप्रख्यैः प्रसादैः
 कन्दरैः शुभैः । दूरान्निशम्य मधुहा द्वारकां द्वारपालिनीम् ॥५॥
 पाञ्चतन्वस्य निर्वोपं चक्रे चक्रगदाधरः । संज्ञां प्रगच्छते देवो
 द्वारकापुरवामिनाम् ॥ ६ ॥ देवानुगाननिर्वोपं पाञ्चतन्वस्य नि-
 स्वनम् । भुक्त्वा द्वारवतीं सर्वे मर्षमनुलं गताः ॥७॥ पूर्णकृष्णैश्च
 लाङ्गैश्च बहु विन्वस्वविस्वरैः । द्वारोपशोभितां कृत्वा सर्वा द्वार-
 वतीं पुरीम् ॥८॥ सुश्लिष्टरथ्यां सश्रीकां बहुरत्नोपशोभिताम् ।
 विमार्श्वार्थं स ॥दाय यथैव कुलनैगमाः ॥ ९ ॥ जयशब्दैश्च
 विरिधैः पूजयन्ति स्म मायवम् । नैनतेये तंमासीर्न नीलाञ्जनच-

राजस विद्याधर और सिद्ध भी चल रहे थे ॥ १०३ ॥ जिनको
 कलह प्यारी है ऐसे नारदजी भी वाणसुरके जीतनेको और
 बहूयको देखकर मसन्न होतेहुए द्वारकापुरीको गले ॥ १०४ ॥
 मधुदैत्यका नाश करनेवाले चक्र और गदाको धारण करनेवाले
 श्रीकृष्णने कैलासके शिखरकी समान, भवनोंवाली शुभ कन्दरा
 वाली, और द्वारोंकी मालावाली द्वारकाको दूरसे ही देखकर पांच-
 जन्पका शब्द किया इस प्रकार श्रीकृष्ण द्वारकावासियोंको अपने
 आनेकी सूचना देने लगे ॥ ५ ॥ ६ ॥ जिसके पीछे देवताओंके
 विमानोंका घोंघ हो रहा था ऐसे पांचतन्वके शब्दको सुनकर
 सब द्वारकावासियोंको परम हर्षहुआ ॥ ७ ॥ उन्होंने स्थान २
 पर जलभरे हुए घड़े रखना कर स्त्रीलोककी बर्षा करवा कर मार्गों
 को साफ करवाकर सारी द्वारकापुरीके द्वारोंको सुशोभित
 करदिया ॥८॥ उसकी गलियोंको साफ करना दिया और द्वारका
 को रत्नोंसे सुशोभित करदिया तदनन्तर कुलपुरोहितोंकी समान
 आक्षण अर्घ्य लेकर चले ॥ ९ ॥ और अनेक प्रकारके जयजय-

(११२६) * महाभारत हरिवंशपर्व २ * [सप्तविंशधिकसप्तम

योपगम् ॥ ११० ॥ वरन्दिरे तदा कृष्णं श्रिया परमया युगम् ।
तगानुपूर्व्या वर्णारश्च पूजयन्ति महाबलम् ॥ ११ ॥ अनन्तं केशि-
हन्तारं श्रेष्ठिपूर्वाश्च श्रेणयः । ऋषेभिर्द्वैतगन्धर्वैश्चारणैश्च समं-
ततः ॥ १२ ॥ स्तूपते पुण्डरीकान्तो द्वारकोपवने स्थितः । तदा-
श्चर्गमपश्यन्त दाशार्हणसत्तमाः ॥ १३ ॥ प्रहर्षमतुलं प्राप्ता
दृष्ट्वा कृष्णं महाभुजम् । वाणं जित्वा महादेवमायान्तं पुरुषोत्त-
मम् ॥ १४ ॥ द्वारकावासिनां वाचश्चरन्ति बहुधा तदा । प्राप्ते
कृष्णे महाभागे यादवानां महारथे ॥ १५ ॥ गत्वा च दूरमध्वानं
सृपणो द्रुतगागतः । धन्यः स्मोऽनुगृहीताः स्मो येषां नै जगतः
पिता ॥ १६ ॥ रक्षिता चैव गोप्ता च दीर्घबाहुर्महाभुजः । नैन-
तेगं समारुह्य जित्वा वाणं सुदुर्जगम् ॥ १७ ॥ प्राप्तोऽयं पुण्डरी-
कान्तो मनास्पाल्हादपन्निव । एवं कथयतामेव द्वारकावासिनां

कार करके माधवकी पूजा करने लगे, नीले अञ्जनके ढेरकी समान
परमशोभा युक्त गरुड़ पर बैठे हुए श्रीकृष्णकी यादव वन्दना
करने लगे तदनन्तर वनिये आदि केशीका नाश करनेवाले महा-
बली अनन्तकी क्रमपूर्वक पूजा करनेलगे, द्वारकाके वनमें खड़े हुए
दाशार्हवंशी महाभुज श्रीकृष्णको देखकर देवता ऋषि गन्धर्व
इस आश्चर्यको देखकर घबरा प्रसन्न होनेलगे वाणासुर
को जीतकर आए हुए पुरुषोत्तमको देख कर द्वारकावासी
प्रसन्न होने लगे ॥ १०-१४ ॥ उस समय यादवोंके महारथी
श्रीकृष्णके आने पर द्वारकावासी अनेकपकारकी बातें कहने लगे.
कि-॥ १५ ॥ यह गरुड़ बहुत दूरजाकर शीघ्रही लौट आए जगत
के पिता महाभुज दीर्घबाहु गोविन्द हमारे रक्षक हैं अतः हम धन्य
हैं और अनुगृहीत हैं वह पुण्डरीकान्त कठिनतासे जीतनेवाले वाणा-
सुरको जीत गरुड़ पर बैठ कर हमारे मनको प्रसन्न करते हुए
फिर गहाँ पर आगए हैं द्वारकावासी इसमन्त्र कह रहे थे इसी

तदा ॥ १८ ॥ वासुदेवग्रहं देवा विविशुस्ते गहारथाः । अनतीर्थ
 सुपर्णात्तुवासुदेवो बलस्तदा ॥ १९ ॥ प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च गृहान्
 प्रविशिशुस्तदा । ततो देवविमानानि संवरन्ति तदा दिवम् १२०
 अश्वस्त्रिगतानि हरगन्ते नानारूपाणि सर्वशः । हंसपंभमृगैर्नागै
 र्बाजिसारसबहिर्ह्यैः । भास्वन्ति तानि दृश्यन्ते विमानानि सह-
 स्रशः ॥ २१ ॥ अथ कृष्णोऽश्वनीद्वाक्यं कुमारंस्तान् सहस्रशः ।
 प्रद्युम्नादीन् समस्तांस्तु श्लक्ष्णं मधुरया गिरा ॥ २२ ॥ एते
 रुद्रास्तयादित्या बसवोऽथारिबनावपि । साध्या देवास्तथाऽन्ये च
 बन्दध्वं च यथाक्रमम् ॥ २३ ॥ सहस्राक्षं महाभागं दानवानां
 भयंकरम् । बन्दध्वं सहिताः शकं सगणं नागबाहनम् ॥ २४ ॥
 सप्तर्षयो महाभागा भृगवाङ्गिरसमाश्रिताः । अणयश्च महात्मानो
 बन्दध्वं च यथासुखम् ॥ २५ ॥ एते चक्रधराश्चैव तानबन्दत

समय महारथी देवताओंने वासुदेवके घरमें प्रवेश किया तदनन्तर
 प्रद्युम्न अनिरुद्ध और वासुदेव तथा बलराग गरुडसे उतर कर अपने
 घरोंमें घुमे उस समय देवताओंके विमान आकाशमें घूम रहे थे
 अनेक प्रकारके रूप वाले हंस, बैल, गृग, हाथी, घोड़े, सारस
 और मोरोंसे जुने हुए सहस्रों प्रकारके विमान तहाँ पर खड़े
 हुए दीखते थे तदनन्तर श्रीकृष्णने मधुर वाणीमें प्रद्युम्न आदि
 समस्त कुमारोंसे कहा, कि-२२ इन रुद्र आदित्य वसु अश्विनी-
 कुमार तथा साध्य देवताओंको तुम क्रमशः गणाम करो ॥२३॥
 सहस्र नेत्रवाले और ऐरावत हाथी वाले महाभाग इन्द्रको और
 उनके गणोंको भी तुम प्रणाम करो ॥२४॥ यह महाभाग सप्तर्षि
 भृगु और अगिरा आदि का आश्रय लेकर खड़े हुए हैं इनको
 तुम सुखपूर्वक प्रणाम करो ॥ २५ ॥ समुद्र सरोवर और चक्र-
 धर मेरे मेरेके कारण यहाँ आये हैं तुम इन सबको प्रणाम करो
 दिशा दिशाओंके कोने और वासुकी आदि महाबलवान् नाग

(११२८) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * [सप्तविंशधिकशततम

सर्वशः । सागराश्च हृदाश्चैव मत्प्रियार्थमिहागताः ॥ २६ ॥
दिशाश्च विदशाश्चैव वन्दध्वं च यथाक्रमम् । वासुकिप्रसुखाश्चैव
नागा वौ सुमहावलाः ॥ २७ ॥ गावश्च मत्प्रियार्थं वी वन्दध्वं
च यथाक्रमम् । ज्योतीषि सह नक्षत्रैर्यज्ञराज्ञसकिन्नरैः ॥ २८ ॥
आगता मत्प्रियार्थं वी वन्दध्वं च यथाक्रमम् वासुदेववचः श्रुत्वा
कुमाराः प्रणताः स्थिताः ॥ २९ ॥ यथाक्रमेण सर्वेषां देवतानां
महात्मनाम् । सर्वान् दिवोकसो दृष्ट्वा पीरा विस्मयमागताः १३०
पूजार्थमथ सम्भारान् मगृह्य द्रुनमागताः । अहो सुमहदाश्चर्या
वासुदेवस्य संश्रयात् ॥ ३१ ॥ प्राप्यते यदिहास्माभिरिति वाचश्च-
रन्त्युत । ततश्चन्दनचूर्णैश्च गन्धपुष्पैश्च सर्वशः ॥ ३२ ॥
किरन्ति पीराः सर्वास्तान् पूजयन्तो दिवोकसः । लाजैः प्रणामै-
र्धूपैश्च वाद्यध्वनियमैस्तथा ॥ ३३ ॥ द्वारकावासिनः सर्वे पूज-

(गह सब मेरे प्रेमके कारण यहाँ आए हैं) तुम इन सबको क्रमा-
नुसार प्रणाम करो २६गौँ भी मेरा प्रिय करनेके लिये-आई हैं
उनको भी क्रमशः प्रणाम करो नक्षत्र यज्ञ राज्ञस और किन्नरों
को साथमें लेकर ज्योतियों भी मेरे प्रेमके कारण यहाँ आई हैं
उनको भी तुम क्रमानुसार प्रणाम करो, वासुदेवके वचनको सुन
कर कुमार सब महात्मा देवताओंके मागने खड़े होकर प्रणाम
करने लगे और नम्र होकर खड़े होगए सब देवताओंको देख
कर पुरवासी विस्मित होने लगे ॥ १२८-१३० ॥ और पूजाके
लिप शीघ्र ही सामग्री ले आये और कहने लगे कि-वासुदेवका
आश्रय लेनेसे हमें यह बड़ा भारी आश्चर्य देखनेको मिल रहा
है, पुरवासी चन्दनके चूरेकी और पुष्पोंकी वर्षा करके सब
देवताओंकी पूजा करने लगे सब द्वारकावासी खीले बखेर कर
प्रणाम करके धूप करके वाजोंकी ध्वनि करके देवताओंकी पूजा
करने लगे महाभाग्यवान् इन्द्रने आहुक (उग्रसेन) वासुदेव यदु-

पान्ति दिवीकसाः । आहुकं वासुदेवं च साम्बं च यदुनन्दनम् ३४
 सात्यकिं चोन्मुकं चैव विपृथुं च महाबलीम् । अक्रूरं च महाभागं
 तथा निशठमेव च ॥३५॥ एतान् परिप्लव्य तदा मूर्ध्नि चाधाय
 वासवः । अथ शक्रो महाभागः समन्तं यदुगण्डले ॥ ३६ ॥ स्तु-
 वन्तं वैशिहन्तार तत्रोवाचोत्तरं वचः ॥ सात्वतः सात्वतामेव सर्वेषां
 यदुनन्दनम् ॥३७॥ मोक्षयित्वा रणे चैव यशसा पीरुषेण च ।
 महादेवस्य गिगतो गुहस्य च महात्मनः ॥ ३८ ॥ एष वाणं रणे
 नित्वा द्वारकां पुनरागतः । सहस्रबाहोर्वाहूनां कृत्वा द्रयगनुत्त-
 मम् ॥३९॥ स्थापयित्वा द्विराहुस्ते गातोयं स्वपूर हरिः । यदर्थं
 जन्म कृष्णस्य मानुषेषु महात्मनः ॥ १४० ॥ तदप्युच्यते कार्यं
 नष्टशोका वयं कृताः । पित्रतां मधुगाभ्वीक भवतां प्रीतिपूर्वकम् ।
 कालो यास्पत्यविरसं विषयोवेव त्यज्यताम् । बाहूनां संश्रयात्
 सर्वे वयमस्य महात्मनः ॥ ४२ ॥ प्रष्टुशोका संस्थापः सर्व एव

नन्दन, साम्ब सात्यकि, उन्मुक, महाबली विपृथु, महाभाग अक्रूर
 तथा निशठको आलिंगन किया, और उसके मस्तकको भी मूँघने
 लगा फिर यादवोंके मण्डलके सामने स्तुति पाते हुए केशिनाशन
 श्रीकृष्णसे उत्तरमय वचन कहने लगा श्रीकृष्ण सात्वितवर्शिगों
 में मुत्तय है इन्होंने महादेव और महात्मा, कार्तिकेयके सामने अपने
 यश और पुरुषार्थसे छुड़ाया है ॥१३५॥ ३६॥ यह बाणासुरको
 रणे जीतकर और उस सहस्र भुजाशालेकी दो श्रेष्ठभुजाओंको
 ही शेष रख कर फिर द्वारकामें ही आगये हैं, महात्मा केशवका
 जिसलिये मनुष्योंका जन्म हुआ है ॥ १४० ॥ वह कार्यभी पूर्ण
 होगया और हमारा शोक नष्ट होगया है अब हम प्रसन्नतापूर्वक
 आपके दिये हुए मधु माध्वीकको, पिनेगे, ॥१४१॥ अब तुम्हारा
 समय श्रीकृष्णके सामने ही बीतेगा, विषयोंमें प्रेम न करना चाहिये
 हम इन महात्माकी भुजाओंके आश्रयसे शोक रहित होकर सुख

(११३२) * महाभारत-हरिवंशपर्व २ * अष्टाविंशाधिकशततमे

शिवदत्तैस्तु हर्षादुन्फुल्ललौचनाः ॥६॥ मायूरं रथमारुह्य सेखीभिः
परिवारिता । उषा मंप्रेषिता देव्या रुद्राण्या प्रतिगृह्यताम् ॥१०॥
इयं चैव कुलश्लाघ्या नाम्नोपा सुन्दरी वरा । वाणपुत्री तव वधूः
प्रतिगृह्णीष्व भामिनीम् ॥ ११ ॥ ततः प्रतिगृहीता सा स्त्रीभिरा-
चारमङ्गलैः । प्रवेशिता च सा वेश्म अनिरुद्धस्य शोभना ॥१२॥
देवकी रोहणी चैव रुक्मिण्यथ विदर्भजा । दृष्ट्वाऽनिरुद्धं रोदन्त्यः
स्नेहहर्षसमन्विताः ॥ १३ ॥ रेवती रुक्मिणी चैव गृहमुख्यं प्रवे-
शयत् । वधुर्द्धिसि दिष्ट्या त्वमनिरुद्धस्य दर्शनात् ॥१४॥ तत-
स्तूर्यप्रणादैस्ता वरनार्यः शुभाननाः । क्रियामारेभिरे कर्तुमुषा च
गृहसंस्थिता ॥१५॥ ततो हर्म्यतलस्था सा वृष्णिपुङ्गवसंस्थिता ।

गदके वशमें होकर बहुतसी स्त्रियों दूसरी स्त्रियोंके पास जाने
लगीं और बहुतसी स्त्रियों, कि जिनके नेत्र हर्षके कारण खिल रहे
थे वे फाँसे खिलने लगी ६ (उस समय श्रीकृष्ण स्त्रियोंसे कहने
लगे कि-) रुद्राणीने जिस ऊपाके सन्तुष्ट किया है ऐसी सत्रियोंसे
घिरी हुई और मायूर पर बैठी हुई ऊपाके ग्रहण करो ॥१०॥
हे भागिनि ! पशंसनीय कुलवाली वाणकी पुत्री सुन्दरी ऊपा
तुम्हारी पुत्रवधू है इसको ग्रहण करो ॥११॥ तदनन्तर स्त्रियोंने
अपने कुलकेआचार करके और मंगलमय गीत गाकर उसको घर
में लिया फिर उस शोभनाका अनिरुद्धके घरमें प्रवेश कराया १२
तदनन्तर देवकी रोहणी और रुक्मिणी तथा विदर्भकी पुत्री अनि-
रुद्धको देख कर हर्ष और स्नेहमें भर कर रोने लगीं ॥ १३ ॥
रेवती और रुक्मिणी (ऊपाके) मुख्य घरमें ले गईं (और कहने
लगीं) हे वधू ! अनिरुद्धका दर्शन करनेसे तू बड़ी भाग्यवती
घतीन होती है ॥ १४ तदनन्तर वह शुभ मुख वाली स्त्रियों
तुरहियोंको बजाकर अपनी क्रियाके आरंभ करनेलगी उस समय
ऊपा घरमें बैठी हुई थी वृष्णिपुंगवके साथ रहनेवाली श्रेष्ठ मुख

रगते सर्वसदृशरूपभोगैरानना ॥१६॥ चित्रलेखा च सुश्रोणि
 अप्सरारूपधारिणी । अपृष्टा च सखीदुर्गमुपा च त्रिदिवं गता ॥
 गतासु तासु सर्वासु सखीष्वसुरसुन्दरी य मायास्तया गृहं नीता
 प्रथमं सो निमन्त्रिता ॥१८॥ सो तु प्रद्युम्नगृहिणी स्तुपा दृष्ट्वा
 सुमध्यमा । वासोभिरन्नपानैश्च पूजयामास सुन्दरीम् ॥१९॥
 ततः क्रमेण सर्वास्ता बधुमूर्ता यदुस्त्रियः । आचारंभ्रजुपरपत्न्यः
 स्वधर्ममुपचक्रिरे ॥२०॥ वैशम्पायन उवाच । एतत्ते सर्वमाख्यातं
 मया कुरुकुलोद्ग्रहं । यथा बाणो जितः संये जीवन्मुक्तश्च वि-
 ष्णुना ॥ २१ ॥ द्वारकायां ततः कृष्णो रेमे गदुगयैर्द्वितः । अन्व-
 शासन्महीं कृत्स्नां परया संयुतो मुदा ॥ २२ ॥ एवमेवोवतीर्णो
 वी पृथिवीं पृथिवीपते । विष्णुर्गदुकुलश्रेष्ठो वासुदेवेति विश्रुतः ॥२३॥

वाली ऊपा महलमें रहकर सर्व ऐश्वर्योंको भोगनेलगी १५।१६
 अप्सराका रूप धारण करने वाली सुश्रोणि चित्रलेखा भी
 संखियोंसे और ऊपासे बृहत् कर-स्वर्गको चली गई ॥ १७ ॥
 जब सब सखियाँ चली गईं तब उस असुर सुन्दरीको मायावतीने
 निमन्त्रण देकर पहिले अंगने घरमें बुलाया १८ सुन्दर कमर
 वाली प्रद्युम्नकी स्त्रीने अपनी पुत्र बधुको देख कर बस्त्र अन्न
 पान आदिसे उस सुन्दरीका भत्कार किया १९ तदेनन्तर कुला-
 चारको देखने वाली सब यादेवस्त्रियोंने भी बधु ऊपाका भत्कार
 करके अपने धर्मका पालन किया २० वैशम्पायनजीने कहा, कि-
 हे कुरुकुलोद्ग्रह ! जिसप्रकार श्रीकृष्णने युद्धमें बाणासुरको जीत
 कर जीताहुआ ही छोड़ दिया था वह सब बात मैंने तुमसे कह
 दी २१ तदनन्तर यादवोंसे घिरे हुए श्रीकृष्ण द्वारकामें आन-
 न्द करने लगे और आनन्द पूर्वक सारी पृथ्वीका शासन करने
 लगे २२ हे पृथ्वीपते ! इस भावि विष्णुने पृथिवीमें अबतार लिया
 था और वह गदुकुलमें श्रेष्ठ वासुदेव नामसे प्रसिद्ध हुये थे २३

एतैश्च कारणै श्रीमान् नमुदेनकुले प्रभुः । जातो वृष्णिषु देवर्षा
यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २४ ॥ निवृत्ते नारदपश्ने यन्मयाक्तं
समासनः । श्रवास्ते विस्तराः सर्वे ये पूर्वं जनमेजय ॥ २५ ॥
विप्योस्तु माथुरे कन्वे यत्र ते सशयो महान् । वासुदेवगतिश्चैव
सा मया समुदाहृता ॥ २६ ॥ आश्चर्यं चैव नान्यद्द्वै कृष्ण-
श्नाश्चर्या-संनिधिः । सर्वेष्वशाश्चर्याकृतरेषु नास्त्यश्चर्यमनौ-
ष्णम् ॥ २७ ॥ एष धन्यो हि धन्यानां धन्यकृद्भन्यभावनः ।
देवेषु तु सदैत्येषु नास्ति धन्यतरोऽच्युतः ॥ २८ ॥ आदित्या
वपत्रो रुद्रा अश्विनी गहनस्तथा । गगनं भूर्दिशश्चैव सलिलं
ज्योतिरेव च ॥ २९ ॥ एष भाना विधाता च संहर्षी चैव नित्यशः
सत्यं धर्मस्तपश्चैव ब्रह्मा चैव पितामहः ॥ ३० ॥ अनन्तश्चैव

तुपने मुझमें जो बात ब्रह्मा की सो विष्णु इन कारणोंमें विष्णु
चं ॥ २४ ॥ नमुदेवके कुलमें देवकीसे उत्पन्न हुए थे २४ नारदजीके
पूछने पर मैंने संक्षेपपूर्वक जो बात कही थी, हे राजा जनमे-
जय ! उस सबको आपने विस्तारपूर्वक सुन लिया २५ तुम्हें इस
बातका बड़ा सन्देह था कि-श्रीकृष्णने माथुरामें क्यों जन्मलिया
था, सो तुमसे मैंने वासुदेवकी सारी गति कह दी २६ वासुदेवसे
बदकर और कोई आश्चर्य नहीं है, वासुदेव आश्चर्योंके खजाने हैं
सब आश्चर्यकी बानोंमें कोई ऐसा आश्चर्य नहीं है जिसमें विष्णु
का प्रवेश न हो २७ यह श्रीकृष्ण धन्य हैं और धन्योंको भी धन्य
करने वाले हैं तथा धन्यभावन है देवता तथा दैत्योंमें श्रीकृष्ण
से अधिक और कोई धन्य नहीं है (श्रुतिमें लिखा है कि-“एष
सोऽनन्दगति गही मवको आनन्दित करते हैं अर्थात् धन्य करते
हैं) २८ आदित्य नसु रुद्र अश्विनीकुमार मरुत् आषाण भूमि
दिशामें जल और ज्योति धाता तथा विधाता और संहर्षी यह
सब श्रीकृष्ण ही हैं अर्थात् यह सब इनहीसे उत्पन्न हुए हैं, सत्य

नागानां रुद्राणां शंकरः स्मृतः । जङ्गानङ्गमं चैव जगन्नारा-
यणोद्भवम् ॥ ३२ ॥ एतस्माच्च जगत् सर्वं प्रभूयेत जनार्दनात् ।
जगच्च सर्वं देवेशो तं नमस्कुरु भ्राता ॥ ३२ ॥ पुञ्जश्च सततं
सर्वदेवेशेण सनातनः । इत्युक्तं वाणयुद्धं ते माहात्म्यं केशवस्य
तु ॥ ३३ ॥ वंशप्रतिष्ठामनुलां श्रवणादेव लप्स्यसे । ये चेदं धार-
यिष्यन्ति वाणयुद्धमनुत्तमम् ॥ ३४ ॥ केशवस्य च माहात्म्यं
नार्पित्वान् भविष्यति । एषा ते वीष्णवी चर्या मया कात्स्वयेन
कीर्तिता ॥ ३५ ॥ पृच्छास्वान् यज्ञेस्मिन्निवृत्ते जनमेजय । आश्रय-
पर्वनिखिन्नयो हीद धारयेन्मृतम् ॥ ३६ ॥ सर्वापावनिनिर्मुक्तो
विष्णुलोकं स गच्छति । कल्पसु भाग्यो निम्नं कीर्तयेत् सुसभा
दिनः ॥ ३७ ॥ न तस्य दुर्लभं किञ्चिदिह लोके परत्र च ब्राह्मणः

धर्म विद्यामह ब्रह्मा और तू भी (यह ही है) २९ ३० यह नागोंमें
शेषनाग और रुद्रोंमें-शंकर कहलाते हैं सब चराचर जगत् नारा-
यणमे ही उत्पन्न हुआ है ॥ ३१ ॥ इन जनार्दनसे ही सब जगत्
उत्पन्न होता है और सब जगत् इन देवेशमें ही रहता है हे भारत !
तू इनको प्रणाम कर ॥ ३२ ॥ यह सनातन पुरुष देवताओंके सदा
पूज्य है इस प्रकार तुझसे वाणासुरका युद्ध और केशवका माहा-
त्म्य कह दिया ३३ इसके सुननेसे तेरे वंशमें अतुल्य प्रतिष्ठा
मिलेगी जो इस परम सुन्दर श्रेष्ठ वाणासुरके युद्धमें और केशव
के माहात्म्यके (अपने मनमें) धारण करेगा धर्म उनका सेवन
नहीं करेगा हे तात जनमेजय ! इस यज्ञके निवृत्त होने पर तुम्हारे
पूछनेपर तूसे वैष्णवी चर्या कहदी हे नृप [जो इस सारे आश्रय
पर्वकी मनमें) धारण करता है ॥ ३४ ॥ ३६ ॥ वह सब पापों
से छूटकर विष्णुलोकमें जाता है, जो पुरुष प्रातःकाल उठकर सान-
धानीके साथ इसका पाठ करता है ३७ उसको इस लोकमें और
परलोकमें कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती (इसका जानने वाला)

योगवल्लान्विताः । सर्वाश्च ब्रह्मवादिन्यः सर्वाश्चैवोर्ध्वरेतसः २१ ।
 उमा तासां वरिष्ठा च ज्येष्ठा च वरवर्णिनी । महायोगवल्लो-
 पेना -महादेवसुपस्थिता ॥ २२ ॥ असितस्यैकपर्णा तु देवलस्य
 महात्मनः । पत्नी दत्ता महाब्रह्मन् योगाचार्याय धीमते ॥ २३ ॥
 जैगीपन्व्याग तु तथा विद्धि तामेकपाश्र्चाम् । एते चापि महाभागे
 योगाचार्यावुपस्थिते ॥ २४ ॥ लोकाः सोमपदा नाम मरीचैर्यत्र
 वै सुताः । पितरो यत्र वर्तन्ते देवास्तान् भावयन्त्युत ॥ २५ ॥
 अग्निष्वात्ता इति ख्याताः सर्वे एवामितीजसः । एतेषां मानसी
 कन्या अच्छोदा नाम निम्नगा ॥ २६ ॥ आच्छोदं नाम विख्यातं
 सरो यस्याः समुत्थितम् । तथा न दृष्टपूर्वास्ते पितरस्तु कदा-

तीनों तपोमय शरीर वाली हैं और तीनों ही योगवल्ल वाली हैं,
 सब ब्रह्मवादिनी हैं और ऊर्ध्वरेता हैं ॥ २१ ॥ उन सबमें
 उमा बड़ी थी और वह वरवर्णिनी उनमें श्रेष्ठ भी थी वह महा-
 योगरूप वल्ल वाली महादेवजीको विवाही गई (इस बातसे यह
 बात दिखाई है, कि-ऊर्ध्वरेता पुरुषोंकी समान ऊर्ध्वरेता
 स्त्रियोंको पतिके बिना शाश्वत लोक नहीं मिल सकते) ॥ २२ ॥
 हे महाब्रह्मन् ! बुद्धिमान् महात्मा योगाचार्य असित देवलको
 एकपर्णा पत्नीरूपमें विवाही गई थी ॥ २३ ॥ इसी प्रकार जैगी-
 पन्व्यको एकपाटला विवाही गई थी, यह समझ लो ये दोनों
 महाभागवती योगाचार्योंको विवाही गई थी ॥ २४ ॥ (अब
 दूसरे अग्निष्वात्ता नामक गणको कहते हैं) सोमपद नाम वाले
 (सोमपद् करनेसे मिलने वाले) लोक हैं, तहाँ पर मरीचिके पुत्र
 पितर रहते हैं देवता उनकी पूजा करते हैं ॥ २५ ॥ (अग्नि-
 साध्य पिता आदिकी इष्टियोंमें ग्रहणकिये जाने वाले) ये सब
 अपित तेजस्वी अग्निष्वात्ता नामसे प्रसिद्ध हैं अच्छोदा नामक
 नदी इनकी मानसी कन्या है ॥ २६ ॥ उसमेंसे आच्छोदा नाम